

**DUE DATE SLIP**

**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DTATE	SIGNATURE

# शान्तकुटी-वैदिकग्रन्थमाला

तस्यां च शास्त्र्यादिविरुदालङ्कृतेन

विश्वबन्धुना

कर्मिष्ठसंघटकानां लम्बितप्रौढविशेषाणामुपनिशानां विदुषां सहयोगतश्च

परामर्शकसंघटकानां नानादेशीयानामुपनिशानां

विपश्चिदपश्चिमानां सन्निर्देशतश्च

संपादितायाम् अयं

१०मो ग्रन्थः

होशिआरपुरे

विश्वेश्वरानन्द-वैदिक-शोध-संस्थानेन प्रकाशितः

२०१६ वि०

## THE SHANTAKUTI VEDIC SERIES

*Edited*

*with the co-operation of a Staff Organisation of about thirty  
specially Trained Scholars and under the general  
guidance of an international  
Advisory Board*

*By*

VISHVA BANDHU, *Shastri, M. A., M.O.L., O.d'A. Fr.*

VOLUME X

HOSHIARPUR

Published by the V. V. R. Institute

1959  
P. O. SERIES OFFICE,  
VARANASI (U. P.)

# A VEDIC WORD-CONCORDANCE

Being a *universal vocabulary register* of about 500 Vedic works,  
with complete textual reference and critical commentary bearing on  
phonology, accent, etymo-morphology, grammar, metre,  
text-criticism, and ur-Aryan philology

*In five Volumes, sub-divided into fifteen Parts*

By

VISHVA BANDHU

Director, the Vishveshvaranand Vedic Research Institute and the  
D. A.-V. College Research Department, formerly,  
Principal, Dayānanda Brāhma Mahāvīdyālaya.

*In collaboration with*

BHIM DEV, RAMANAND, AMAR NATH, PITAMBAR DATT  
AND MANY OTHER SCHOLARS.

Vol. IV in Four Parts

(Vedāṅga-sūtras)

PART III

प-ल

Pages I-IV and 1457—2116.

HOSHIARPUR

PUBLISHED BY THE V. V. R. INSTITUTE

1959

# वैदिक-पदानुक्रम-कोषः

स च

संहिताब्राह्मणोपनिषद्वेदाङ्गसूत्रवर्गीयोपपञ्चशत[५००]वैदिकग्रन्थस्थ-सकलपदजात-संग्रहस्वरूपः

प्रतिपदप्रतियुक्त-श्रुतिस्थलसर्वस्व-निर्देशैः समवेतश्च यथासंगत-तत्तत्प्रागर्वाग्लक्षण-

विचारसमन्वितटिप्पणैः सनाथितश्च

संभूय पञ्चदशखण्डात्मकैः पञ्चभिर्विभागैर्व्यूढश्च

सन्

दयानन्दब्राह्मणमहाविद्यालयीयाचार्यपदप्रतिष्ठितपूर्वेण, विश्वेश्वरानन्दवैदिकशोधसंस्थानस्य

च दयानन्दमहाविद्यालयीयाऽनुसंधानविभागस्य च संचालकेन

सता

विश्वबन्धुना

भीमदेव-रामानन्द-अमरनाथ-पीताम्बरदत्त-

प्रमुखानां बहूनां शास्त्रिणां

सायुज्य-समुपलम्भेन

संपादितः

अयं च तत्र

(वैदाङ्गिकस्य)

चतुःखण्डात्मकस्य ४र्थस्य विभागस्य

३यः खण्डः

प-ल

पृष्ठानि, I-IV च १४५७-२११६ च

होशियारपुरे

विश्वेश्वरानन्द-वैदिक-शोध-संस्थानेन प्रकाशितः

२०१६ वि०

( All Rights Reserved )

Printed and Published by Dev Datta Shastri,  
at the V. V. R. I. Press, Hoshiarpur.

First edition, first issue, 1959. Quality III, 250 Copies.

Price Rs. 20/-.

( अधिकार-सर्वस्वं सुरक्षितम् )

होशियारपुरे वि. वै. शो. सं. मुद्रागृहे

देवदत्तशास्त्रिणा मुद्रापितः प्रकाशितश्च ।

प्रथमं संस्करणम्, प्रथमः प्रकाशः, २०१६ वि. । ३५ कोटिः, २५० प्रतिकृतयः ।

मूल्यम् २०) रु. ।

Prepared and published under the patronage of the Governments of the Indian Union and the States of Panjab, Jammu-Kashmir, Himachal, Uttar Pradesh, Bihar, Assam, Orissa, Madhya Pradesh, Bombay, Mysore, Kerala, Rajasthan and Madras, the former Princely States of Hyderabad, Travancore, Baroda, Indore, Kolhapur, Sangli, Patiala, Nabha, Jodhpur, Bikaner, Idar, Alwar, Udaipur, Shahpura, Sirmur and Keonthal, the former Princely Estates of Awagarh and Vijayanagaram, the Universities of Panjab, Poona, Andhra and Calcutta and the Trusts and Charities of Swami Vishveshvaranand, Shri Vishva Bandhu, Shri Moolchand Kharaitiram, D. B. Krishna Kishore, Shri Dhani Ram Bhalla, Shri Jai Dayal Dalmia, R. B. Jodha Mal Kuthiala and other donors.

अथ

# वैदिक-पदानुक्रम-कोषे

वैदाङ्गिके चतुर्थे विभागे

तृतीयः खण्डः

प

प<sup>०</sup>- पि ऋत ४, १, ६.  
 प<sup>१</sup>- >प-कार- -रः ऋप्रा ६, २२;  
 -रात् शुप्रा ४, ७; -रे ऋप्रा ४,  
 ४१; १३, ३०; उसू ८, १९<sup>०१</sup>;  
 शुप्रा ३, १४०; याशि १, ६२.  
 पकार-पूर्व- -र्वः तैप्रा ५, ३६.  
 पकार-त्रगौ(सी-उ)पहित- -तात्  
 ऋप्रा १४, ५३.  
 पकारा(र-अ)दि- -द्वयः याशि  
 २, १.  
 पकारा(र-अ)न्त<sup>०</sup>- -न्ते माशि  
 १४, ५; याशि २, ३८<sup>३</sup>; -न्तौ  
 माशि ३२.  
 प-वर्ग- -र्गः अप्र ४७, २, ३; शुप्रा  
 ८, १२; -र्गात् माशि ३१;  
 -र्गे तैप्रा २, ३९; शैशि ५०;  
 भाशि ५८.  
 √पसू पाधा. चुरा. उभ. नाशने >  
 पसन->नीय- -याः या १२,  
 १९.  
 प<sup>१</sup> वेज्यो १८.  
 पक्तवे, क्तव्य- प्रमृ. √पन् द्र.  
 √पन् पाधा. चुरा. पर. परिग्रहे.  
 पक्ष<sup>०१</sup>- पाठ ३, ६९; पाग ४, २, ८०<sup>६</sup>;  
 ३, ५४; ५, २, १००<sup>११</sup>; -क्षः  
 ऋशांश्रौ १७, १३, २; ३; काश्रौ;  
 -क्षम् आश्रौ १२, ६, १७; शांश्रौ  
 १७, १३, २; ३; आपश्रौ; आपशु  
 ८, ५<sup>१</sup>; -क्षयोः आपश्रौ १६,  
 ३३, ५; माश्रौ; -क्षस्य आपश्रौ  
 १७, ११, ३; वीश्रौ; -क्षाः

वीश्रौ १ : २२; वैताश्रौ ६,  
 ११; वेज्यो २३; -क्षाणाम्  
 वेज्यो २३; -क्षाणि वाधूश्रौ ४,  
 ८५ : २; -क्षात् आश्रौ ४, ४,  
 ४; आपश्रौ; पा ५, २, २५;  
 -क्षान् माण्ड २, १३, ८;  
 -क्षाभ्याम् आपश्रौ ९, ११, २४;  
 १४; ३१, १; निसू ६, ७ : १७;  
 १९; -क्षे काश्रौ १८, ३, २;  
 आपश्रौ; -क्षेऽक्षे वैध १, ५, ३;  
 -क्षेण निसू ६, ७ : १५; आज्यो  
 ७, ६; मीसू ३, ३, १८; ७, ३४;  
 -क्षौ आपश्रौ १७, १२, १०;  
 वीश्रौ; या १४, २९.  
 पाक्षायण- पाग ४, २, ८०.  
 पाक्षिक<sup>१</sup>- -क्तात् वीश्रौ २९,  
 ८ : १०.  
 पक्ष-कर(ण>)णी<sup>१</sup>- -ण्याः आपशु  
 १९, ९; हिशु ६, २९.  
 पक्ष-क्षय- -यः आज्यो ७, ८; -ये  
 आज्यो ७, ७.  
 पक्ष-च्छिद्र- -द्राः आमिष्ट २, ७,  
 ६ : २४; -द्राणि आज्यो ६, ७.  
 पक्ष-ति- पा ५, २, २५.  
 पक्ष-त्रय- -ये हिपि २१ : ९; शंघ  
 ४३२.  
 पक्ष-द्वय- -यम् काश्रौसं ३२ : १;  
 काण्ड ४१ : ११; ४५ : १३;  
 -ये आमिष्ट २, ७, ९ : ४१.  
 पक्ष-द्वादशको(क-उ)द्गत- -ताः  
 वेज्यो १५.  
 पक्ष-नमन- -नम् आपशु १८, ९<sup>१</sup>.  
 पक्षनमनी- -न्याः आपशु

१९, १०; हिशु ६, ३०.  
 पक्ष-निर्णाम<sup>१</sup>- -मः आपशु १५,  
 ५; १८, १; हिशु ५, ५<sup>१</sup>; ६, ५;  
 -मयोः हिशु ५, ४३<sup>०१</sup>.  
 पक्ष-पत्र- -त्राणाम् वीशु १० : ३१.  
 पक्षपत्रा(त्र-अ)पच्छेद- -दम्  
 वीशु १३ : ४.  
 पक्ष-पार्श्व- -श्वयोः वीशु ९ : २.  
 पक्ष-पुच्छ, छ<sup>०</sup>- -च्छान् वीश्रौ १५,  
 १९ : ६; -च्छानाम् आपशु २१,  
 १२; हिशु ६, ६९; -च्छानि काश्रौ  
 १७, ६, ७; १२; १८, २, ११;  
 आपश्रौ १६, १७, १०; माश्रौ;  
 -च्छेषु वीश्रौ २२, ६ : ११; माश्रौ;  
 -छानाम् माश्रौ ६, १, ६, ११.  
 पक्षपुच्छा(च्छ-अ)न्यय- -येषु  
 काश्रौ १६, ८, १५.  
 पक्ष-प्रवयस<sup>१</sup>- -यांसि वीशु ५ :  
 १४.  
 पक्ष-मध्य- -ध्ययोः आपशु २०, ३;  
 हिशु ६, ४१.  
 पक्षमध्वी(य>)या- -याः  
 आपशु २०, ३; हिशु ६, ४०;  
 -याम् आपशु १९, ७; हिशु ६,  
 २५.  
 पक्ष-वत् मीसू १०, ५, ५६.  
 पक्ष-विपर्यय- -यम् आश्रौ ९, ३, ६.  
 पक्ष-व्रत- -तम् शंघ ४१८.  
 पक्ष-शेष- -षम् शांश्रौ १५, १२, ७;  
 वाध २३, ४५; वीशु ८ : १८.  
 पक्ष-संहित- -तानि वीश्रौ १५,  
 १९ : २.  
 पक्ष-संक्षय- -यः आज्यो ७, ८.

a) = वर्ण-विशेष-। व्यु. ? । b) परे इति पाठः ? यनि. शोघः ( तु. Pertsch ) । c) विप. । वस. ।

d) = आपः ( पूर्वापाठा-देवताः ) । e) = पत्र- , मासार्थक- , विभाग- प्रमृ. । f) वैप १ द्र. । g) अर्थः ? ।

h) तु. पागम. । i) वं इति पाठः ? यनि. शोघः । j) तात्रभविकृष् उक् प्र. । k) = इधका- । l) पक्षि<sup>०</sup>

इति पाठः ? यनि. शोघः । m) = पक्षवक्रप्रदेश- ( तु. भाष्यम् [ हिशु ५, ४३ ] ) । वस. । n) -न्वा इति पाठः ? यनि.

शोघः । o) वैप २, ३ खं द्र. ।

पक्ष-संघि- -घे: वौश्रौ २२, ८: ९.  
 पक्ष-संसि(त>)ता<sup>a</sup>- ता क्षश्रौ  
 ८, ८, ८.  
 पक्ष-स्तोत्री(य>)या- ये निस्  
 ८, १३: २०.  
 पक्ष-हत<sup>b</sup>- -तम् कौसू ३१, १८.  
 पक्ष-होम- -मः कागृउ ४१: ११;  
 अप २३, ७, ५; -मम् अप २३,  
 ७, ४; ८, १; -मात् कागृउ  
 ४५: १४; -मे काश्रौसं ३२: १.  
 पक्षहोम-नियम- -मः कागृउ  
 ४५: १३.  
 पक्षहोम-समास- -से कागृउ  
 ४५: १९.  
 पक्षा(क्ष-अ)ग्र- -ग्रम् आपशु १८,  
 ८; हिद्यु ६, १३; -ग्रयो:  
 वैश्रौ १८, १६: ७८; आपशु;  
 -ग्रात् वौशु ८: १६; २१;  
 -ग्रे आपशु १८, ७; हिद्यु ६,  
 ११; -ग्री वौश्रौ १७, २८: १२.  
 पक्षाग्री(य>)या- -या: आपशु  
 २०, १; हिद्यु ६, ३७; -याम्  
 आपशु १९, ८; हिद्यु ५, २७.  
 पक्षा(क्ष-अ)व्यय- -ये मागृ ३,  
 २१: ५.  
 पक्षा(क्ष-आ)दि- -दयः गोशु १, ५,  
 ५; -दिषु पागृ १, १२, १; -दौ  
 काश्रौ २४, ४, २६; कप्र २, ६,  
 ११; अप ५०, ६, १; ३.  
 पक्षादिक<sup>c</sup>- -कम् कप्र २, ६, ११.  
 पक्षा(क्ष-अ)न्त- -न्तम्<sup>d</sup> कागृउ  
 ४४: १६; -न्तयो: विघ ९५,  
 १२; -न्ता: गोशु १, ५, ५;  
 -न्तात् माश्रौ ६, १, ५, ४०;

-न्ते वैश्रौ १८, १४: ४११;  
 १५: १.  
 पक्षा(क्ष-अ)न्तर- -रम् वाघ १६, ३.  
 पक्षा(क्ष-अ)पचय- -ये अप ५०,  
 ३, ४.  
 पक्षा(क्ष-अ)प्यय- -ययो: आपशु  
 १०, २; २०, १; वौशु ११:  
 १२; हिद्यु ३, ४०; ६, ३८;  
 -ये आपशु १८, ९; हिद्यु ६,  
 १४; -यौ आपशु १९, १२;  
 हिद्यु ६, ३३.  
 पक्षा(क्ष-अ)भिधान- -नम् लाश्रौ  
 १०, १६, २.  
 पक्षा(क्ष-आ)याम- -मः आपशु  
 १५, ८; हिद्यु ५, १३.  
 पक्षा(क्ष-अ)विशेष- -यम् वौश्रौ  
 २६, ३: १२; -वे वौश्रौ २६,  
 २: १५; २३.  
 पक्षा(क्ष-आ)श्रय- -येण वाघ १६,  
 ३७.  
 पक्षा(क्ष-अ)ष्टमी- -न्याम् पागृ ३,  
 ३, ४.  
 पक्षिक<sup>e</sup>- (>पाक्षिक्य- पा.) पाग  
 ५, १, १२८.  
 पक्षिन्<sup>f</sup>- -क्षिणः आपश्रौ १७, २४,  
 २; वौश्रौ; -क्षिणम् आपमं २,  
 १७, ११; अप ७१, ५, ५;  
 -क्षिणाम् विघ ४१, १; आज्यो  
 ४, ८; -क्षिन्याम् आपश्रौ २२,  
 १२, १०१; हिश्रौ १७, ५, १८;  
 -क्षी आपश्रौ २२, १२, १०१;  
 काश्रौ २२, १०, ३४; हिश्रौ.  
 पक्षिणी- -णी भागृ २, १७,  
 १२१; शंघ ३४८; वौघ १,

५, ११४; -णीम् कागृ ९, ११;  
 मागृ १, ४, १०; वागृ.  
 पक्षि-नागक- (>पाक्षिगणक-  
 पा.) पाग ५, १, १२९.  
 पक्षि-नान्धौ(न्ध-ओ)पधि-रज्जु-  
 वैदल- -लानाम् विघ ५२, १३.  
 पक्षि-घातिन्- -न्ती विघ ५, ४३.  
 पक्षि-जग्ध- -न्धम् विघ २३,  
 ३८; वैघ २, १५, ३.  
 पक्षि-मत्स्य-मृग- -गान् पा ४,  
 ४, ३५.  
 पक्षि-मांस- -सम् गोशु ३, २,  
 ५०.  
 पक्षि-योनि- -नयः विघ ४४, ४.  
 पक्षि-राज- -जः सु १, ३.  
 पक्षि-रूप- >पिन्- -पिणम्.  
 वृदे ४, ९४.  
 पक्षि-वध- -धे विघ ५०, ४३.  
 पक्षि-सामन्<sup>g</sup>- -म निस् ७,  
 ९: २२.  
 पक्ष्य(क्षि-अ)भीज्या- -ज्यायाम्.  
 निस् ७, ९: २२.  
 पक्षिल- पा ५, २, १००.  
 पक्षे(क्ष-इ)ष्टका- -काभिः आपशु  
 २०, ३, ११; हिद्यु ६, ४१, ५१;  
 -काम् आपशु १९, ६; हिद्यु ६,  
 २३.  
 पक्षो(क्ष-उ)पप्लव- -वे वौश्रौ १०,  
 २४: ३; ७.  
 पक्षो(क्ष-उ)पोषण- -णम् आमिगृ  
 २, ७, ५: १३.  
 पक्ष्य- पा ४, ३, ५४.  
 पक्ष्य-भोजन- -नम् काश्रौ १८,  
 ६, २५.

- a) वैप १ द. । b) विप. >नाप. (पक्षाघातः) । सप्त. । सा (भू. [श्रौ ६, ८०]) केशवश्च पक्षि-हृतम् इति ? ।  
 c) विप. (पक्षादौ दीयमान-] चरु) । तस्येदमीयप् ठ्ठ् >इकः प्र. उ.सं. (पा ५, १, ९६) । d) वा. किवि. ।  
 e) अर्थः ? । मत्स्यमीयप् ठ्ठ् प्र. इति ? । f) ष्णः इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. ऋ १०, १६५, २; ऋ. च) ।  
 g) = साम-विशेष- ।



पक्ष-करणी- प्रमृ. पक्ष- द्र.

पक्षस<sup>१</sup>- पाठ ४,२२०; -क्षः आश्रौ ११, ७, ६; १२, ३, ५; वौश्रौ २६, १६ : १७; निसू ५, १० : ४; -क्षसः आश्रौ ११, ७, ८××; आपश्रौ २१, १६, ६; १६; १७; निसू १०, ९ : ४; -क्षसा शाश्रौ १३, २९, ११; -क्षसि वौश्रौ २६, १७ : २; द्राश्रौ; -क्षसी आपश्रौ १८, ४, ६××; वौश्रौ; -क्षसोः निसू ५, ९ : १२; १०, ८ : २८; २९.

पक्षः-संमित- -तः वौश्रौ १९, १ : १२.

पक्षसंहित- प्रमृ. पक्ष- द्र.

पक्षमन्- पाठमो २, १, २८५; पाग ५, २, ९७; -ङ्कमण<sup>०</sup> आपश्रौ १९, ५, ७; हिश्रौ २३, १, ६.

पक्षम-गुड<sup>०</sup>- उम्<sup>०</sup> मागृ १, २१, १२.

पक्षम-गुण<sup>०</sup>- गम्<sup>०</sup> कागृ ४०, १८; वागृ ४, २३.

पक्षम-चामर-चर्म-तृण-वाल-वेत्र-वलकला(लं-आ)दि- -दीनाम् शब्द १७४.

पक्षम-ल- पा ५, २, ९७.

पक्ष्य- पक्ष- द्र.

पङ्क<sup>१</sup>- पाठमो २, २, ३१ पाग २, ४, ३१; ५, २, १००; -ङ्के सु २, ४; अप ४, ६; २; ६९, ७, १; याशि १, ४२.

पङ्क-ज<sup>१</sup>- (>°ज्ञान>]नी- पा.) पाग ५, २, १३५.

पङ्क-दन्त<sup>१</sup>- -न्तः सु १६, ५.

पङ्क-पिण्ड-शैवाल-संयुत- -तम् कप्र ३, ४, १३.

पङ्क-भार<sup>१</sup>- (>°भारिक- पा.) पाग ४, ४, १६.

पङ्क-मग्न- -ग्नौ सु २, ३.

पङ्क-शैवाल-दुष्टग्राह-मत्स्य-जलौका (का-आ)दि- -वर्जित- -ते विध १२, २.

पङ्किल- पा ५, २, १००.

पङ्के-सन्न- -न्नान् सु २, ४.

पङ्क्ति<sup>१</sup>- पा ५, १, ५९; पाग ४, १, ८६; ५, ४, ३८<sup>१</sup>; -ङ्क्तयः

शाश्रौ १८, १४, ४; वृदे; -ङ्क्तये माश्रौ ५, २, १५, २<sup>१</sup>; वाश्रौ १, १, ५, २<sup>१</sup>; वैताश्रौ १, १८; वागृ १३, १; अप्राय ६, ९<sup>१</sup>; -ङ्क्तिः

शाश्रौ ७, २७, ३०××; आपश्रौ; अत्र ८, १०<sup>१</sup>; या ७, ११; १२<sup>१</sup>;

-ङ्क्तिभिः आश्रौ ६, ३, ५; माश्रौ ६, २, २, २१; वाश्रौ २, २, १, ३१;

-ङ्क्तिभ्यः लाश्रौ ६, १०, २७; -ङ्क्तिम् ऋआपश्रौ १०, ९, १;

१६, १९, १××; वौश्रौ; -ङ्क्तिपु आश्रौ ५, १४, ११; निसू ६, ८ :

७; ऋप्रा १५, २४; १८, ५८; -ङ्क्ती आश्रौ ६, २, ४; ऋअ;

-ङ्क्तीः शाश्रौ १२, ७, ६; काश्रौ; -ङ्क्तीनाम् आश्रौ ६, ३, ६;

शाश्रौ ६, ३, १; ७, २६, ३; ऋअ ४, ३; उनिसू ८ : २०; -ङ्क्तेः

शाश्रौ ७, २७, १२, ९, ५, ८; कौसू; -ङ्क्ती द्राश्रौ २, ४, २१; लाश्रौ

१, ८, ९; -ङ्क्तयः भाश्रौ ५, २०, १०; -ङ्क्त्या आश्रौ २, १९, ३४; आपश्रौ; -ङ्क्त्याः

आपश्रौ ८, १६, १३; १४, १९, १<sup>१</sup>; २६, २<sup>१</sup>; वैश्रौ २१, ५ : ८;

हिश्रौ १५, ५, १७<sup>१</sup>; -ङ्क्त्याम् ऋप्रा १८, ४९; -ङ्क्त्यै

आपश्रौ ३, १८, ४<sup>१</sup>; वौश्रौ ३, २३ : १९; भाश्रौ ३, १४, २;

हिश्रौ २, ८, १; -ङ्क्त्यौ आपश्रौ ५, २८, २; १३, २५, ५; वौश्रौ

३, २ : १३; वैश्रौ १, २० : ५; हिश्रौ २१, २, ५०.

पाङ्क्<sup>१</sup>- पा ४, १, ८६; -ङ्क्तः आश्रौ ४, १२, १; शाश्रौ;

-ङ्क्तम् आश्रौ ४, १३, ७; १४, २; १५, २; शाश्रौ; -ङ्क्तस्य

लाश्रौ ७, ९, ११; -ङ्क्ताः निसू ९, १ : ४४; १०, ६ : ११;

-ङ्क्तात् आपश्रौ १४, १९, २; २२, २८, १३; हिश्रौ २३ ४, ५१;

-ङ्क्तानि शाश्रौ ६, ६, १९; १०, १२, १३; निसू ९, १ : ४५;

-ङ्क्ताय शाश्रौ ९, २७, १<sup>१</sup>; -ङ्क्ते आश्रौ ७, १२, १७<sup>२</sup>;

शाश्रौ १६, ७, १४; अत्र २, २४; -ङ्क्तेन आश्रौ ६, ५, १७;

शाश्रौ ९, २०, १९; वौश्रौ ९, ३ : १९××.

पाङ्क्त-काकुभ<sup>१</sup>- -भः ऋप्रा १८, ८.

पाङ्क्ता(ङ्क्ता-अ)वसान- -ने आश्रौ ८, ३, ६.

a) वैप-१ द्र. । b) पामे. पृ ११६६ f द्र. । c) =पक्षम-गुण- । उप. ? । d) परस्परं पामे. । e) विप. ((ऊर्णारज्जुयुक्त-] तिल-नेशल-) । वस. । f) =कर्म- । व्यु. ? । <√पक्षव्यकीकरणे] इति अभा. । g) =कमल- । उस. । h) विप. । वस. । i) तु. पागम. । j) पामे. वैप २, ३४. पङ्क्त्यै तैत्रा ३, ७, ६, २ टि. द्र. । k) पङ्क्ती इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. संस्कृतुः टि.) । l) पामे. वैप १, १८७६ ० द्र. । m) नाप. (प्रगाथ-) । मलो. कस. । एतदनु पृ १००९ ० शोधः द्र. ।

पाङ्क्त्य- न्याः शंघ १९९.  
 पङ्क्ति-कार्य- र्वम् हिश्रौ १, २,  
 ७४; ७५.  
 पङ्क्ति-च्छन्दस्<sup>b</sup> - नन्दसः आपश्रौ  
 १४, ४, ११०; माश्रौ २, ५, ३,  
 २६०; वैश्रौ १७, ५ : ४; हिश्रौ ९,  
 ७, ५५; -न्दसा वैताश्रौ १९,  
 १७; -नन्दाः आपश्रौ १९,  
 ४, ९; वैश्रौ ११, ६ : ७; हिश्रौ  
 १३, ८, ४२.  
 पङ्क्ति-दूपक- -काः शंघ १४३;  
 विघ ८२, ३०; काध २७८ : ११.  
 पङ्क्ति-दूपण- -णाः आपध २,  
 १७, २१; हिघ २, ५, ४९; -णैः  
 वाध ११, २०.  
 पङ्क्ति-पध्या- -ध्वे उतिसू ७ :  
 ३२.  
 पङ्क्ति-पाद- -दौ निसू १, ३ : ६;  
 ८; १०; १२.  
 पङ्क्ति-पावन- -नः कौघ ३, १२,  
 २९; कप्र ३, ७, १५; वाध ११,  
 २०; गौध १५, २७; चव्यू २ :  
 ३५; -नम् शंघ १९१; -नाः  
 वाध ३, १९; शंघ २००<sup>c</sup>; आपध  
 २, १७, २३; वौध २, ८, २;  
 विघ ८३, १; हिघ २, ५, ५०;  
 गौध १५, २८.  
 पङ्क्ति-प्रतिप्रयोज(न >) ना<sup>d</sup> -  
 -नाः निसू ८, ७ : ३७.  
 पङ्क्ति-प्राजाप(त्व >) त्वा- -त्वाः  
 हिश्रौ ५, ४, ८८; -त्याभ्याम्  
 हिश्रौ २, ७, ५४.  
 पङ्क्ति-महापङ्क्ति-पङ्क्त्युत्त(र >)

रा- -राभिः ऋञ् २, १०, ५९.  
 पङ्क्ति-महावृहती-पङ्क्त्य (ङ्क्त्-  
 अ)न्त<sup>e</sup> - न्तम् ऋञ् २, ८, ३५.  
 पङ्क्ति-सूधन्य- -न्यः कप्र ३, ८,  
 १५; -न्यम् गौपि २, २, २७.  
 पङ्क्ति-राधस्<sup>f</sup> - -धसम् ऋवौश्रौ  
 ९, २ : ९; ३ : ४.  
 पङ्क्ति-वत् उतिसू २ : ३५<sup>g</sup>.  
 पङ्क्ति-शंस<sup>h</sup> - -सम् आश्रौ ८,  
 ३, ५; ४, ९; शाश्रौ १०; ६,  
 ४ x x.  
 पङ्क्त्य(ङ्क्त्-अ)नुग्रह- -हाय निसू  
 ६, ४ : २.  
 पङ्क्त्य(ङ्क्त्-अ)न्त<sup>e</sup> - न्तः ऋप्रा  
 १८, ८; -न्तम् ऋञ् २, ५,  
 ७ x x; -न्तत्त्व ऋञ् २, ५, १.  
 पङ्क्त्या(ङ्क्त्-आ)दि- -द्वयः ऋञ्  
 २, ६, ७५.  
 पङ्क्त्यु(ङ्क्त्-उ)त्त(र >) रा<sup>h</sup> - -राः  
 ऋञ् १, ९, ११; ऋप्रा १६, ६८;  
 शुञ् ५, ७०.  
 पङ्क्त्यु(ङ्क्त्-उ)दयन<sup>i</sup> - -नाः  
 आपश्रौ १७, १०, ५.  
 पङ्गू<sup>j</sup> - पाउमो २, १, ४८; -ङ्गुः  
 आमिण्ट ३, १०, १ : ५; वौपि  
 ३, ५, २; अप २, ५, १; विघ ४५,  
 १४.  
 पङ्गू- पा ४, १, ६८.  
 ✓पञ्<sup>k</sup> पाषा. भ्वा. उभ. पाङ्के, पञ्चते  
 आपश्रौ १०, १४, ७; माण्ट ३,  
 १४ : २०<sup>l</sup>; अप ४८, २;  
 पञ्चति काश्रौ ४, ८, २; २०,  
 १, ४; आपश्रौ; वा १, १; ७,

२८<sup>m</sup>; पा ५, १, ५२; पञ्चते  
 आपश्रौ ८, ११, ११; वौश्रौ;  
 पञ्चन्ति आपश्रौ ७, २८,  
 ८<sup>n</sup>; १६, १३, ७; वौश्रौ;  
 पञ्चसि या ७, २३; ऋपचामि अञ्  
 ६, १२३; १२, ३; अप ३ : १३;  
 पञ्चन्तु वायूश्रौ ४, ३७ : २७;  
 पञ्चत्वाश्रौ ३, २, ७, ५<sup>o</sup>; ऋपच  
 आपश्रौ ४, १६, ५, ५, १२, १ x x;  
 वौश्रौ; ऋपचऽपच अप ३५, १,  
 २; ३६, ९, ३; ऋपचत्, > ता अञ्  
 ९, ५; ऋप्रा ७, ३३; ऋपचयाः  
 वौश्रौ १५, ८ : ७<sup>p</sup>; ऋपचः  
 आपश्रौ २०, ६, ५; हिश्रौ १४,  
 २, ६; पञ्चत् वौश्रौ १७, ३९ :  
 २८ x x; माश्रौ; पञ्चेत् वायूश्रौ  
 ३, ४४ : ९; आण्ट ४, ४, १४;  
 पञ्च्युः काश्रौ ४, १३, ९.  
 पञ्चे वौश्रौ २४, १३ : ९<sup>q</sup>; ऋपच  
 वृदे ४, १२६; पञ्चेत्  
 पावा ६, ४, १२०<sup>r</sup>; पञ्च्यन्ति  
 पावा १, ४, २३.  
 पञ्च्यते वौश्रौ १२, १५ : २४;  
 वायूश्रौ ४, १२ : १२; अप ५३, ३,  
 ३; आपध २, ७, २; हिघ २, २,  
 २३; पञ्च्यन्ते वौश्रौ ९, ४ : ३;  
 १०, ७ : ४; वैश्रौ १३, ५ : ७;  
 अप ९, ४, २; शंघ ३७४; विघ  
 ४३, २३; पा ५, १, ९०;  
 ऋपच्यत्वाश्रौ १५, ९, २४;  
 वौश्रौ १७, ३२ : ५<sup>s</sup>; ६; माश्रौ  
 ५, २, ४, ५; हिश्रौ १३, ८, ७<sup>t</sup>;  
 ऋपच्यन्त वृदे ५, १७; पञ्च्यत

a) विप. । वञ् > ण्यः प्र. उत्सं. (पा ४, ४, १०४) । b) विप. । वस. । c) पङ्क्तिश्च इति पाठः ?  
 दानि. शोधः (तु. वैश्रौ १७, ५ : ४) । d) विप. (महानात्री-) । वस. उप. अर्थः ? । e) विप. । दस. > वस. ।  
 f) वैप २ द. । g) वा. क्वि. । वैप २, ३६. द. (तु. वैताश्रौ ३२, १४ पदावग्रहम्) । h) = त्रिपुट्ट-विशेष- । वस. ।  
 i) = श्रौण- । व्यु. ? < ✓पञ् इति अभा. < ✓पा [अर्थः ?] इति पाठो. । j) वा ६, १६ पावा १, ४, २३;  
 ३, १, ८७; ७, २, १०; ६३ पठान्तः द. । k) छान्दसं रूपम् [तु. कैटः] ।

गोष्ट १,४, २३.  
 पाचयति वौश्रौ २, १२ : २८;  
 ६, १ : २४; १२, १५ : २३; १५,  
 २ : २०; पाचयन्ति या २, २२;  
 पाचयति वौश्रौ २४, २१ : ७;  
 पाचयेत् वैष्ट ५, १३ : ८; आपघ  
 २, ८, ४; हिध २, १, १०५.  
 पक्तवे कौष्ट ५, ५, ५१.  
 पक्तव्य-व्यः या ३, १२.  
 पक्ति<sup>a</sup>- पा ३, ३, ९५; ९६; -क्तिः  
 या १, १; -क्तीः शुप्रा २, ६४१.  
 पक्तिवैषम्य- म्यात् आपश्रौ  
 २४, ४, १७; वौश्रौ २८, ५ : ७;  
 मीसू ११, ४, ३८.  
 पक्त्र- पाउ ४, १६७.  
 पक्त्वा काश्रौ ४, ८, १०; १४, १,  
 १७; १५, ९, २४; आपश्रौ.  
 पक्, का- पा ८, २, ५२; -कः शाश्रौ  
 १२, १७, ११; वौश्रौ १२, १६ :  
 ४; हिश्रौ २, ३, ३९; अश्र ९,  
 ५१; -कम् शाश्रौ १२, १६, १;  
 १५, १९, १०; १८, ११, २;  
 काश्रौ; या ३, ८; ५, ३××;  
 -कया वैष्ट ४, ३ : १८;  
 -कस्य गौध ७, २१; -का  
 आपश्रौ १४, ३३, १०; हिश्रौ  
 १५, ८, ४३; लाश्रौ ८, ३, ४;  
 -काः वौश्रौ २, १० : ३४१;  
 -कात् आमिष्ट २, २, १ : ३××;  
 -कान् काश्रौ २२, ३, ४१; २६,  
 १, २७; माष्ट २, १४, २८;  
 -कानि वैष्ट ४, ८ : ११; -काम्  
 आपश्रौ १६, ५, ११; माश्रौ ६, १,  
 २, १९; वाश्रौ; -कायाम् काश्रौ

१५, १०, २; १६, ७, १०; -कासु  
 वौश्रौ १०, ७ : ५; वैताश्रौ ८,  
 ४; -के शाश्रौ १२, १५, १;  
 -केन वैष्ट ४, २ : २; ३ : १७;  
 ६, १७ : ५××; -केषु आपश्रौ  
 ६, ३१, ९; १५, ४, ६; वौश्रौ.  
 पक्-कपाय<sup>c</sup>- -यः विध ९६, १.  
 पक्-फल-लम् आमिष्ट २, ४,  
 ९ : ३.  
 पक्-होम-मः वौष्ट १, ७,  
 ११××; -मात् वौष्ट १, ५, १५;  
 -मे वौष्ट १, ५, १६.  
 पक्का(क-अ)मि- -नौ जैष्ट  
 २, ९ : २५<sup>d</sup>.  
 १पक्का(क-अ)न्न- -न्नम् काश्रौ  
 २०, २, १५; -न्नस्य वौषि ३,  
 ४, २३; -न्नानाम् विध ५, ८४.  
 २पक्का(क-अ)न्न<sup>e</sup>- -न्नाः शाश्रौ  
 ८, २१, ११.  
 पक्का(क-अ)शन- -नम् वौश्रौ  
 १५, ७ : २१; ८ : १; वाधूश्रौ  
 ३, ७५ : ५.  
 पक्के(क-इ)ष्टर्का[का]-चित<sup>f</sup>-  
 -तानि विध २३, ४१; -ते विध  
 २३, ४५.  
 पच्>पक्-प्रकू(ट>)टा-, पक्-लव  
 (ण>)णा- पाग २, १, ७२.  
 पक्- पा, पाग ३, १, १३४.  
 पक्- पा ३, २, ३३.  
 पक्त्- -चन् कौसू ६१, ३२१; अश्र  
 १२, ३१; पावा ६, १, ६७;  
 -चन्तम् कौसू ८६, ४१.  
 पक्त्>व-भृज्ज(त>)ता- पाग  
 २, १, ७२.

पक्त्, ता<sup>h</sup>- पाउ ३, ११०; -तः  
 आश्रौ ६, ५, २५; याः ६, १६;  
 -ता निघ ४, ३; या ६,  
 १६१; -तैः आपश्रौः २०,  
 ११, १६; १७, ४; वौश्रौ १५,  
 २८ : १६; हिश्रौ १४, ३, ५५.  
 पक्त्-वाहस<sup>h</sup>- -हसः शाश्रौ ८,  
 २१, ११.  
 पक्त्<sup>h</sup>- -नम् वौश्रौ ९, ३ : २५;  
 १०; ६ : ३; २२, २ : ९; माश्रौ  
 ४, १, २१; ६, १, २, १७; शंघ  
 १७६; वौष्ट ३, १०, ३; -नानि  
 अष ७०<sup>g</sup>, ११, २११; -ने वौश्रौ  
 २२, २ : १७; वौष्ट २, ८, २१;  
 वैष्ट ३, ७ : १; आपघ २, ३,  
 १६; हिध २, १, ४७; -नेन  
 वौश्रौ ९, ३ : ३०××; माश्रौ;  
 -नेः वैश्रौ १३, ५ : ४.  
 पक्त्-भाण्ड- -ण्डानाम् शंघ  
 ३३५.  
 पक्त्ना(न-आ)लय- -ये वैध ३,  
 ४, १०.  
 पक्त्मान- -नाः वौश्रौ १५, ३ : ४;  
 १८, १८ : ९.  
 पक्त्मान-क<sup>l</sup>- -काः वौध ३, ३,  
 २; ३.  
 पक्त्- पाउ ४, ११८.  
 पक्त्लिम्- पाउ ४, ३७.  
 पक्त्मान, ना- -ना अश्र १२, ५१;  
 -नान् आपश्रौ १५, ४, ४; माश्रौ  
 ११, ४, २; -नानाम् वैश्रौ १८,  
 १६ : ७५; आपश्रु ९, १७;  
 हिश्रु ३, ३६; -नानि वैश्रौ १३,  
 ५ : ९; हिश्रौ २४, १, २१;

a) भाप. । b) पाप्मे. वैष २, ३३खं. स्वादुम् ऐत्रा ७, १५ टि. द्र. । c) विप. । वस. उप.  
 =कोधादि- [तु. हैमकोपः] । d) अः इति पाठः ? यनि. शोधः । (तु. C.) । e) विप. । वस. । f) प्रथमस्थलीयः  
 पाठः । g) विप. । कस. > तृस. पूष. [पक्षे] हस्वाभावः उरसं. (पा ६, ३, ६५) । h) वैष १ द्र. । i) पक्त्वे  
 इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. उत्तरं स्थलम्) । j) स्वार्थे कः प्र. ।

-नाम् आपधौ १६, ५, १०;  
वाधौ २, १, १, ४४; हिधौ ११,  
१, ६३; वैताधौ २८, १३.  
१पाक<sup>a</sup>- पाग ५, १, १२२; -कः अप  
७०<sup>३</sup>, ९, ५; वाध ११, १२;  
पावा १, ४, २३<sup>३</sup>; मीसू १०, ३,  
३६; -कम् अप ३६, १४, १;  
-कत्य मीसू १०, ३, ३७; -कात्  
वौधौ २९, १२ : ७; विध ६७,  
१; -के काधौ १६, ४, २६;  
वैध ३, १९ : २; विध ५९, ७;  
पा ५, ४, ६५; ६, १, २७; मीसू  
७, २, २०.  
पाक-कन्द-मूल-फल- -लानि  
वौधौ २८, १३ : २.  
पाक-कर्ण-पर्ण-पुष्प-फल-मूल-  
वालौ(ल-उ)त्तरपद- -दात् पा  
४, १, ६४.  
पाक-ता-, पाक-त्व- पा ५, १,  
१२२.  
पाक-मूल- -ले पा ५, २, २४.  
पाक-चक्ष<sup>b</sup>- पावाग ४, २, ३५;  
-ज्ञः लाधौ ५, ४, २३; कात्  
१३, १; २; वात् १, ३; गोत् १,  
९, १६; द्रात् १, १, २०; -ज्ञस्य  
काधौ ६, १०, २८; -ज्ञाः द्राधौ  
१२, १, ३; लाधौ; -ज्ञान् आत्  
१, ३, १०; शात्; -ज्ञानाम् आत्  
१, १०, २६; वौध ४, ५, १; ९,  
१४; वात् १, ३६; गोत् १, ९, ९;  
-ज्ञे द्राधौ १२, १, ८; लाधौ ४,  
९, ५; -ज्ञेन आपधौ ९, १५, ५;

वैधौ २०, ३२ : ९; पात् ३, १२,  
३; आपध १, २६, ८; हिध १,  
७, १९; -ज्ञेषु काधौ ६, १०,  
२६; आत् १, ३, ५; कौत् १,  
११, २; भात् ३, १२ : १; गोत्  
१, ९, ८; -ज्ञैः वैत् १, १ : १४;  
वैध १, ५, ३; गौध १, ६४.  
पाकयज्ञ-पशु- -शुन् मात्  
२, ५, ६.  
पाकयज्ञ-याजिन्- -याजी  
वैध १, ४, १.  
पाकयज्ञ-वत् मीसू ९, २, ४.  
पाकयज्ञ-विधान- -नेन अप  
३१, ६, ३; ३२, ४, ३; ६५, ३, ४;  
अशां २५, २१.  
पाकयज्ञ-विधि- -धिः वात्  
१, ४.  
पाकयज्ञ-शब्द- -ब्दः आपत्  
२, ९.  
पाकयज्ञ-संत्य<sup>b</sup>- -स्थान्  
वैत् ६, १८ : ११.  
पाकयज्ञ-संत्या<sup>c</sup>- -स्त्याः  
वौधौ २७, ४ : १; ३; ५; वौत् १,  
१, १; २, ११, ७१; गौध ८, १६;  
-स्थानाम् वैत् ६, १९ : १.  
१पाकयज्ञिक<sup>d</sup>- > क-  
धर्म- -धर्मेण आत् २, ४,  
४ : ९<sup>१६</sup>; वौध ३, ७, ११.  
पाकयज्ञिक-संत्य<sup>e</sup>-  
-स्थानि वौध १, ३, १२.  
२पाकयज्ञिक<sup>f</sup>- पावा ४,  
२, ३५; -काः कप्र १, २, २<sup>h</sup>.

पाकयज्ञे (ज्ञ-इ) टिकर्म-  
विद्- -वित् अप २३, ११, ५.  
पाकयज्ञो (ज्ञ-उ) पवारा-  
(र-अ)त्ति<sup>1</sup>- -त्तिम् मात् २, ४, १.  
पाक-वैषम्य- -न्यात् काधौ ८,  
८, ३५.  
पाक-संयुक्त- -कम् मीसू १०,  
१, ४७.  
पाक-संस्त्या<sup>1</sup>- -स्त्याः शात् १,  
१, १५.  
पाका(क-अ)न्त- -न्ते कप्र २,  
९, ३.  
?पाका(क-अ) र्थ-भोजना(न-अ)  
र्थ- -र्थे हिध २, ५, १४६.  
पाकार्थ-भोजनार्थ-वासी-परशु-  
दात्र-काज- -जानाम्<sup>k</sup> आपध २,  
२२, १५.  
पाकिन्- पा ५, १, १२२.  
पाकुक्- पाठ २, ३०.  
पाक्य- > पाक्या(क्य-अ)भाव-  
-वे काधौ ४, १३, १०.  
पाचक- -कः वैध ३, १४, ३.  
पाचन- -नम् अप ६७, ४, ३.  
पाच्य- -च्यः कप्र २, ५, १३.  
पञ- प्रत्. ✓ पञ् द.  
पञ्च- (> पञ्चिक-पा.) पाग ४,  
४, १०.  
पञ्चमान- ✓ पञ् द.  
१पञ्च<sup>1</sup>- -त्राय कप्र ४, ६३<sup>१</sup>.  
पात्रय- -त्रयः काज १, २८, ८.  
पञ्च-होष<sup>2</sup>- > ऋपञ्चहोषिन्-  
-पिगा या ५, २२<sup>३</sup>.

a) वैप १ द. । b) पञ. उप. भावे कः प्र. । c) पञ. उप. भावे बह्व् प्र. । d) त्वाथे ठक् प्र. उत्सं. (पा ५, ४, ३४) । e) 'विध' इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. वौध.) । f) विप. (भूतिकर्मन्-). वस. उप. भाप. । g) विप. । भवे व्याख्यानं तस्येदमर्थे वा ठक् प्र. (तु. पा ४, ३, ६८) । h) 'त्रियाः' इति जीसं. । i) वस. > कस. । j) = सप्तयज्ञ-विशेष- । पञ. । k) यनि. स्थाने सपा. हिध. 'नार्ये' वाससी!परशु-दात्र-काजानाम्!इति पाप्मे. । 'नार्ये' = [तत्प्रयोजन-]पात्र- । वासी = तद्वपोऽकरणं [तु. वैप १ वाशी-] । काज = मुद्गर- । l) = १-२ पञ्च- (वैप १ द.) ।

२पञ्च<sup>a</sup>- -ञ्रम् लाश्रौ ७,३, ३.

पञ्च-तौरश्रवस- -सयोः लाश्रौ ७, ३, ४.

✓पञ्च पाधा. भ्वा. आत्म. व्यक्ती-  
करणे; चुरा. पर. विस्तारवचने.

१पञ्चन्<sup>b</sup>- पालभो २, १, २७५; पाग  
४, १, १००; -ञ्च आश्रौ १, ५, २;  
२, १२, ५१; ३, ८, १××; शाश्रौ;  
या ४, २३१; २७; -ञ्चऽञ्च  
शाश्रौ ८, ८, ११; १३, ०८, ८;  
काश्रौ १७, ६, २; ८, २२; आपश्रौ;  
-ञ्चभिः आश्रौ ३, १, ११; शाश्रौ  
७, २७, २५; १३, १०, ४; काश्रौ  
२५, १, १०; आपश्रौ; -ञ्चभिः  
ऽ-ञ्चभिः आपश्रौ ९, ११,  
२३; १४, २३, १४; माश्रौ  
३, ७, २; छुसू १, ७ : ११;  
आमिग; -ञ्चम्यः आपश्रौ २२,  
१७, ७; हिश्रौ १७, ६, ४२;  
जैश्रौका १६८; वौगृ २, ९, ८;  
भाग; -ञ्चसु आश्रौ १०, ९, २;  
शाश्रौ ९, २३, १३; १४, ४, २;  
१६, ६, ११; काश्रौ; -ञ्चानाम्  
आश्रौ ४, १५, २; ६, १०,  
१९; १२, १३, ५; शाश्रौ.

पञ्च-क<sup>c</sup>- पाग २, ४, ३१; -कः  
ऋअ १, ५, ७; २, ४, १०; शुअ  
५, ३०; अअ १५, ७; १८; अप  
५ : १४; १८; २२; -कम् कप्र  
३, ६, १; वाध २, ४८; विध ४, ७;  
६, २; ऋअ ३, १६; १९; अअ;  
-काः अप ४७, १, ८; ऋअ १,  
४, २; ६, २; शुअ ५, १५; ३३;  
ऋप्रा १६, १८; ४३; पिं ३, ४४;

वेज्यो १४; -कानाम् ऋअ ३,  
४१; -के कप्र ३, ६, ३; ऋअ  
३, ३२; पिं ३, ५५; -केन कागृ  
६७, २; ६८, २; ६९, २; -कैः  
उनिस् १ : ५०; -कौ ऋअ २,  
४, १०.

पञ्चका(क-अ) वलिस- -सैः अप  
६५, २, २.

पञ्च-कपाल- पावाग ५, १, १२४;  
-लः शाश्रौ २, ५, ८; काश्रौ ४,  
११, ९; १०, ९, १८; आपश्रौ; या  
७, २४; -लम् आपश्रौ ५, २८,  
१; १३, २५, ५; वौश्रौ २०,  
१९ : १०; भाश्रौ; -लस्य वौश्रौ  
३, ३ : १६; -ले शाश्रौ ८, १३, ५.

पञ्च-कर्ण- -र्णानाम् काशु ४, ९.

पञ्च-कला<sup>e</sup>- -ला ऋत २, ४, ३.

पञ्च-कल्प<sup>f</sup>- पा, पाग ४, २, ६०.

पञ्च-कुल- -लैः गौपि १, ५, २९.

पञ्च-कृत्वस्(ः) पाग १, ४, ५७०;  
शाश्रौ १६, १८, १; काश्रौ ७, ८,  
१; ८, १, २××; आपश्रौ.

पञ्च-कृष्णल- -लम् अप ३३, ३,  
२; गौध १२, १५.

पञ्चकृष्णलो (ल-ऊ)- -ने विध  
९, ९.

पञ्च-कोण<sup>g</sup>- -णम् आमिगृ २, ५, १ :  
१९; जैगृ २, ९ : १३; अप २५,  
१, ३; ७.

पञ्च-कम<sup>h</sup>- -मः उसू २, ३०.

पञ्च-गव्य- -व्यम् आमिगृ २, ७, ७ :  
५; अप १३, २, ५; ३८, ३, ३;  
३९, १, ११; विध २२, १८; २३,  
४५; ५१, ४७; ५४, ६; ७; काध

२७७ : ३; -व्येन आमिगृ २,  
५, ९ : ४; ३, १०, २ : ११;  
वौपि २, ८, ७; अप १९, ४, २;  
वाध २७, १४; वौध ४, ५, १४;  
विध २२, ७९; -व्यैः वैगृ ७, ३ :  
२; ४; १४; ६ : ९; जैगृ २,  
६ : ४.

पञ्चगव्य-घृत-दधि-क्षीरा(र-अ)-  
क्षतोदक-कुसोदक-रत्नोदक-  
-कैः वैगृ ४, १० : १४.

पञ्चगव्य-प्राशन- -नम् सुध  
३६.

पञ्चगव्या(व्य-आ)हार<sup>e</sup>- -रः  
शंघ ३९३.

पञ्च-गुण,णा- -णः शंघ ३२४;  
-णम् वेज्यो २८; -णा या  
१४, ४.

पञ्च-गुह्यक-कारित- -तम् अप ७,  
१, १२.

पञ्च-गृहीत- -तम् काश्रौ ५, ४, २;  
१२××; आपश्रौ; -तानि वौश्रौ  
५, १२ : ७; ६, १८ : १२; २१,  
४ : १९; १३ : १२; १३; -ते  
काश्रौ १८, ३, ३; माश्रौ ५, २, ४;  
६, २, ४, १७; वाश्रौ २, २, ३,  
२१; -तेन आपश्रौ १४, ३३, ८;  
काश्रौ १७, ३, २; वौश्रौ.

पञ्चगृहीता(त-आ)दि- -दि  
काश्रौ १७, ७, ७.

पञ्च-चतुर्-गुण<sup>h</sup>- -णाः अप ६४,  
३, ६.

पञ्च-चत्वारिंशत्- -शत् विध ९६,  
६९; आपशु १७, ५; -शत्ऽ-शत्  
दिशु ५, ४५.

a) = साम-विशेष- । व्यु. ? ।

b) वैप १ द्र. ।

c) तु. पागम. ।

d) स्वार्थे तदस्य-

परिमाणे वा कन् प्र. ।

e) विप. । वस. ।

f) = अथर्ववेदिन् । पान्चकल्पिक- > प्र. लुकि

यनि. (तु. पाम. पागम. B।कौसू. भू. LVII) ।

g) = क्रम-विशेष- । वस. ।

h) विप. (सस्य-) ।

वस. > वस. ।

वैप४-चु-२

पञ्चचत्वारिंशद्-अङ्गुला(ल-आ)  
 यत्-तम् वैश्रौ १,३ : ९.  
 पञ्च-चित्तिक<sup>२</sup>- -कः शुभ्र २, ३;  
 -कम्<sup>३</sup> वाश्रौ २, १, ४, १७.  
 पञ्च-चित्तीक- -कम्<sup>३</sup> आपश्रौ १६,  
 १५, ३; वौश्रौ २२, ४ : ७; ९;  
 वैश्रौ १८, १२ : २२; हिश्रौ  
 ११, ५, ३९.  
 पञ्च-चू(ड>)डा<sup>३</sup>- -डाः काश्रौ  
 १७, १२, २०; माश्रौ ६, २, २, ५०;  
 वाश्रौ २, २, १, २४०; काश्रु ४०,  
 ५; काश्रु ४४ : २०; वाश्रु ४,  
 १८; -डानाम् आपश्रु ९, १६.  
 पञ्चचूडा(ड-अ)ङ्गिरस्- -रसाम्  
 चाश्रु १७ : ७.  
 पञ्च-चो(ड>)डा<sup>३</sup>- -डाः आपश्रौ  
 १७, ३, ७०; वौश्रौ १०, ४५ :  
 १२०; वैश्रौ १९, ४ : १५०;  
 हिश्रौ १२, १, २३०; आमिगृ २,  
 ५, ३ : ४६१; वौश्रु ३, ७, २८;  
 -डानाम्<sup>३</sup> वैश्रौ १८, १६ : ७४;  
 वौश्रु ७ : ४; हिश्रु ३, ३५;  
 -डाभिः वौश्रु ५ : २१.  
 पञ्च-जन<sup>३</sup>- पाग ४, ४, ९९; -नाः  
 अप ४८, ७८१; निघ २, ३१;  
 या ३, ७; ८; शौच ४, १०६;  
 -नात् पावा ५, १, ९; -फँनान्<sup>३</sup>  
 आपश्रौ ९, १०, १६; माश्रौ ३,  
 १३, १; हिश्रौ २, ६, ३४; ७,  
 १, ६०; -फँनानाम् आपश्रौ २,  
 ७, ९; वौश्रौ ३, १६ : १२; २४,  
 २७ : ११.  
 पाञ्चजनीन- पा ४, ४, ९९.  
 १ पाञ्चजन्य, न्या<sup>३</sup>- पाग ४,

२, ८०; -फँन्यः आपश्रौ ५,  
 १७, २; हिश्रौ ३, ४, ४७;  
 -न्यम् आश्रौ ९, ५, १६;  
 अप्राय ६, ९; पावा ४, ३, ५८;  
 -न्यया आश्रौ ७, १२, ९; शाश्रौ  
 १०, ६, ८१; या ३, ८१०;  
 -न्यानि अप ३२, १, २१; -न्ये  
 जैश्रौप १४.  
 पञ्चजनीन, ना<sup>३</sup>-पावा ५, १, ९;  
 -नया या ३, ८.  
 पञ्चजनी(य>)या<sup>३</sup>- -या शाश्रौ  
 १०, २, ८; १८, २२, ९; -यायाः  
 शाश्रौ १४, ५६, १४.  
 पञ्चत्- पा ५, १, ६०.  
 पञ्च-त्पस्<sup>३</sup>- -पाः शंघ १५९ :  
 १०; विघ ९५, २.  
 पञ्च-त्तय- -यः वौश्रौ १७, ४४ :  
 १७; -यम् वौश्रौ १५, २८ :  
 २६; -यानि वौश्रौ ५, १८ : २;  
 -येन वौश्रौ २४, १ : १.  
 पञ्च-त्स (ः) वौश्रौ १५, २३ : १५;  
 १६.  
 पञ्च-त्तारक<sup>३</sup>- -काः अप ५२, ६, ५.  
 पञ्च-त्रिंशत्- -शत् अश्रु १०, ८.  
 पञ्चत्रिंश<sup>३</sup>- -शम् वेज्यो ३०.  
 पञ्चत्रिंशद्-रात्र- -त्रः आश्रौ  
 ११, ४, ६; -त्रम् आपश्रौ २३,  
 ६, १; -त्रेण हिश्रौ १८, २, १२.  
 पञ्च-त्व<sup>३</sup>- -त्वम् कप्र १, ६, १४; २,  
 ७, ५; ३, ३, ७.  
 पञ्च-दक्षि(णा>)ण<sup>३</sup>- -णम्  
 अप्राय ६, ४.  
 पञ्च-दशन्- -श आश्रौ १, २, २२;  
 ४, १५, २; ६, ४, १०; ७, ५, ११;

शाश्रौ २, ५, ९; ३, ७, २४४;  
 काश्रौ; या २, १०; १५, ३, १; १९;  
 -शभिः शाश्रौ १५, २२, १;  
 आपश्रौ; -शम्यः काश्रौ ९, २,  
 २२; -शसु आपश्रौ ११, ४,  
 १३; आपश्रु ५, १; हिश्रु २, ७;  
 -शसुः-शसु काश्रौ ८, ३, ९;  
 वैश्रौ १४, ४ : २; -शानाम्  
 लाश्रौ १०, १०, ११.

पाञ्चदश्य<sup>३</sup>- -श्यम् शाश्रौ  
 २, ३, १६; ३, ११, ६; -श्येन  
 हिश्रौ २१, २, ४.

पञ्चदश<sup>३</sup>- -शः आश्रौ ४, १२,  
 १; शाश्रौ; -शम् शाश्रौ १०,  
 १२, ६; १६, २३, ५४४; आपश्रौ;  
 -शस्य शाश्रौ १६, २४, ६;  
 वौश्रौ १६, २४ : ७; १८, ४० :  
 ११; निस् ८, ३ : १८; -शाः  
 आश्रौ १२, ५, १६; काश्रौ;  
 -शात् वेज्यो १६; -शान् निस्  
 ६, १० : ६; १०, ४ : ११;  
 -शानाम् आश्रौ ११, ५, ३;  
 निस् १०, २ : २५; -शानि  
 शाश्रौ ९, २१, ३; १४, १२, ७;  
 आपश्रौ; -शाय शाश्रौ ९, २७,  
 ११; -शे शाश्रौ १०, १२, १४;  
 आपश्रौ; -शेन आश्रौ ४, १२,  
 २; १२, ३, ३; ४, २३; शाश्रौ;  
 -शौ शाश्रौ १४, २५, २, आपश्रौ.

पञ्चदशी<sup>३</sup>- पाग ४, ३,  
 १६; -शी वौश्रौ २४, २१ : ५;  
 वौघ; -फँशोम् आपश्रौ ४, १,  
 ८; वौश्रौ २०, १ : ३१; माश्रौ  
 ४, १, ११; वाश्रुश्रौ ४, १६ : ३०S;

a) वैप १ द्र. । b) परत्परं पाभे. । c) सपा. चूडा: <> चोडा: इति पाभे. । d) परत्परं  
 पाभे. । e) पाभे. वैप १, १८८१ न द्र. । f) तु. पाका. पासि. । g) = अमि-विशेष- । h) तस्येदनीयश् च>  
 द्वयः प्र. उस्. (पा ४, २, १३८) । i) विप. । वस. । j) = मरण- । k) उप. = २दक्षिणा- । l) भावे व्यञ्  
 प्र. । m) वैप १, १०३३ k द्र. । n) विप. (तिथिः, ऋच्-प्रभृ.) ।

वाश्रौ १, १, २, ३; हिश्रौ १, २, ५; -शीषु विध ४९, ७; -श्याः वृदे ५, १३३; -श्याम् आपश्रौ ८, २२, १; आमिष्ट.

पाञ्चदश-पा ४, ३, १६.

पञ्चदश्या (शी-आ) दि-द्वा (<दि-)- द्वे ऋश्च २, ३, ५३.

पञ्चदश-त्रिवृत्<sup>०</sup>- -वृत् लाश्रौ ८, ११, १०; -वृत्तौ शाश्रौ १३, २१, ३; -वृद्भ्याम् निसू १०, ६; १०<sup>२</sup>.

पञ्चदश-पर्याय- -यैः लाश्रौ ६, ६, १५; -यौ लाश्रौ ६, ७, १६; ८, १४.

पञ्चदश-प्रभृति- -तयः शाश्रौ १६, २१, ४; -तीन् निसू ७, ५; ३.

पञ्चदश-भाग- -गः काशु ५, ८.

पञ्चदशभागीय, या- -यः वैश्रौ १८, १६; ७३; -याः आपशु ९, १४; हिशु ३, ३३; -यानाम् आपशु २०, १६; हिशु ६, ५७; -याभिः आपशु १०, ४; ७; हिशु ३, ४३; ४६.

पञ्चदश-वर्तनि<sup>०</sup>- -ःनिः वौश्रौ १०, ३६; १७; १४, २२; १७.

पञ्चदशपदक- -कान् निसू ४, ११; ६.

पञ्चदश-सप्तदश- -शान् निसू ४, १३; ९; -शानि वौश्रौ १८, ३९; ६; -शौ वौश्रौ २५, ५; १२.

पञ्चदश-सम्पद्- -म्पत् निसू १०, ६; २५; २८; ७; २८.

१पञ्चदश-स्तोत्र- -त्रम् वैश्रौ १५, ३६; ११; -त्रे निसू ३, ४; २७.

२पञ्चदश-स्तोत्र<sup>०</sup>- -त्रात् निसू ४, १०; १.

१पञ्चदश-स्तोम- -मः या ७, १०; -मम् शाश्रौ १०, ३, १; लाश्रौ ८, १२, १०; -मस्य शाश्रौ १४, २३, २१; -माः छसू ३, २; २२; -मेन वैश्रौ १७, ११; १२.

२पञ्चदश-स्तोम<sup>०</sup>- -मानि लाश्रौ ९, ११, ६.

पञ्चदशा (श-आ)द्य (दि-अ) र्थ- -र्थः पावा ५, १, ५८.

पञ्चदशै (श-ए) कविश- -शौ वौश्रौ १८, ३१; ८; वैताश्रौ ३५, १७.

पञ्चदश-क<sup>०</sup>- -कम् अशु १९, २७<sup>२</sup>; -के अशु ५, १८; अपं २; ४९; -केन आपशु ५, १२.

पञ्चदश-कपाल- -लम् वौश्रौ २८, ४; १६.

पञ्चदश-कृत्वस् (ः) लाश्रौ १०, १२, ९; अशु ४१, २, ७; ११.

पञ्चदश-छदि<sup>०</sup>- -दि हिश्रौ ९, ७, ४.

पञ्चदश-छदिस<sup>०</sup>- -दिः वैश्रौ १७, १; २.

पञ्चदश-दर्भ- -भैः वैश्रौ १, ८; ६.

पञ्चदश-पर्यन्त<sup>०</sup>- -न्तः काश्रौ ६, १, २९.

पञ्चदश-भेद<sup>०</sup>- -दाः चव्यू २;

३५.

पञ्चदश-मात्र- -त्रः नाशि २, ७, १; -त्राः गौघ १, ५५.

पञ्चदश-रात्र- -त्रः वौश्रौ १६, ३३; ४; ७; -त्रम् आपश्रौ २३, १, ४; अप १, ३३, ६; -त्रस्य निसू ९, १०; ३७; मीसू ८, २, २९; -त्राः आपश्रौ २३, २, १; हिश्रौ १८, १, १७; -त्राणि आश्रौ ११, २, ९; काश्रौ २४, १, २५; -त्रे द्राश्रौ १, ४, २६; लाश्रौ १, ४, २० x x; -त्रेण वाघ ४, २८.

पञ्चदश (श-ऋ)र्च<sup>०</sup> - -र्चः शुश्रु ३, २१७; २३३; -र्चम् अशु ५, २९; -र्चं शाश्रौ १८, १३, ५; -र्चस्यः अप ४६, १०, १२<sup>१</sup>.

पञ्चदश-वर्ष-> -वर्षिक<sup>०</sup>- -काणि आपश्रौ ८, २२, १२.

पञ्चदश-वि (वा >) घ<sup>०</sup>- -घम् निसू २, १३; २०.

पञ्चदशविध-ता- -ताम् निसू २, १३; १९.

पञ्चदश-सामिधेनीक, का<sup>०</sup>- -कम् वौश्रौ २६, ४; १; -का शाश्रौ ५, ३, ३; ५, ३; वौश्रौ २०, १८; १०; २२; १४; २३, १; २.

पञ्चदश-सामिधेनी-दाह- -रुणि भाश्रौ १, ५, ४.

पञ्चदशा (श-अ) क्षर- -रम् वाधूश्रौ ४, १००; ८; १९; -रात् ऋषा १६, ६; -रेण शाश्रौ १०, ८, ११<sup>२</sup>.

पञ्चदशाक्षर-ता- -तायाः निसू १, १; १३.

a) पुं. न. च द्वस. । b) वैप १ द्व. । c) विप. । वस. । d) विप. । कन् प्र. (पा ५, १, ५८) ।

e) विप., नाप. । f) विप. (चातुर्मास्य-विशेष-) । तान्त्रिके ठकि प्र. उप. वृद्धिः (पा ७, ३, १६) ।

पञ्चदशाक्षर-प्रभृति-त्तीनि  
निसू १,६ : १३.  
पञ्चदशा(श-अ)ष्टम-मौ वैज्यो  
११.  
पञ्चदशा(श-अ)ह-हम् विध  
२२,३; -हेन काथ २७३ : ४.  
पञ्चदशिक,का<sup>१</sup>-केन आपशु  
६,७;१०;११; १२; ७,१; हिशु  
२,७<sup>२</sup>;३५;४०;४५;४७.  
पञ्चदशिका-पट्टत्रिंशिका<sup>२</sup>-  
-कयोः वौशु १ : ३७.  
पञ्चदशिका (का-अ)ष्टिका-  
-कयोः आपशु ५,५; वौशु १ :  
३६; हिशु २, १४?४.  
पञ्चदशिन<sup>३</sup>-शिनः आपश्रौ  
२०,१४,६;२३,९, १३.  
पञ्च-द्वार-कृत-ते विध ७०, ७.  
पञ्च-दिश-दिशः शुभ्र २,२९५<sup>४</sup>.  
पञ्चदिश्य-श्यानि शुभ्र १,  
४०६.  
पञ्च-धा आपश्रौ ५,१८,२; वौश्रौ;  
पाग १,४, ५७<sup>५</sup>.  
पञ्च-धातु<sup>६</sup>-तु आपश्रौ १,४,१०;  
२,९,२; भाश्रौ; वैश्रौ ५,६;५<sup>६</sup>.  
पञ्च-धारा<sup>७</sup>-राम् कप्र १,१,११.  
पञ्च-नख<sup>८</sup>-खाः वौध १,५,१३१;  
गौध १७, २५; -खानाम् वाध  
१४,३९; आपध १,१७,३७;हिध  
१,५,६८; -खेभ्यः गौध २३,२७  
पञ्चनख-मत्स्य-वराह-मांस-  
-सानि विध ६६,१४.  
पञ्चनख-मांसा (सा-अ)शन-

-ने विध ५१,६.  
पञ्चनख-विण्-मूत्रा (त्र-अ)  
शन-ने विध ५१,४८.  
पञ्चनख-शव-वम् विध २२,  
७०.  
पञ्चनखा (ख-अ)न्तरा (र-अ)  
गमन-ने विध ३०, २२.  
पञ्चनखा (ख-अ)स्थि-स्थि  
विध २२, ७५.  
पञ्च-नद<sup>१</sup>-दम् अप ५०, ३, ५;  
-दे विध ८५, ५१<sup>२</sup>.  
पञ्च-ना(मन् >)म्नी<sup>३</sup>-म्नीम्  
पाग ३,३,५.  
पञ्च-निधन<sup>४</sup>-नम् क्षुसू ३,५ : ६;  
निसू ६,७ : ४३; -ने लाश्रौ  
१,६,२९<sup>५</sup>.  
पञ्चनिधन-वत् द्राश्रौ २, २,  
३०<sup>६</sup>.  
पञ्च-पञ्चाशत्-शत् अश्र १२,  
२; -शतः हिश्रौ १८, ४, ६४;  
गौपि २,४,१०.  
पञ्च-पति->पाञ्चपत्य<sup>७</sup>-  
-त्यानि अश्र २,१९,  
पाञ्चपत्य-गण<sup>८</sup>-णस्य  
अश्रभू ३.  
पञ्च-प(द >)दा<sup>९</sup>-दा शाश्रौ  
१४,४, ३; १६, २४, २; १८,  
१४,५; निसू; -दाः शाश्रौ ७,  
२६,६; काश्रौसं ६ : १५; निसू  
२, १२ : १९; अश्र २,२४××;  
-दाम् शाश्रौ ६, ६, ६; उनिसू  
१ : ५६; -दायाम् निसू १,

७:९;-दे अश्र १३, १; १७, १××-  
१पञ्चपदी-पाग ५,४,१३९;  
-दी वौश्रौ १४, १४ : ३१;  
आगृ १, ७, १९; कौगृ १, ८,  
२८; शांगृ १,१४,६.  
पञ्च-पदा(द-आ)याम्-मम् वौशु  
२० : ८.  
२पञ्च-प(द >)दी<sup>१०</sup>-पद्याम् अप्रा  
१,३,१४; ३, १, १३; शौच १,  
८८; ३, ५९.  
पञ्च-पर्याय<sup>११</sup>-यः अप्रं ४ : ३९.  
पञ्च-पर्वन्<sup>१२</sup>-वर्णा कौसू २६, ९;  
१०.  
पञ्च-पर्वे(र्व-इ)पु-कुम्भ-कम्-  
ण्डलु-स्तम्भ-कम्पीलशाखा-  
युगे(ग-इ)ध्मा(ध-अ)क्ष-  
-क्षेपु कौसू ३७,३.  
१पञ्च-पशु-शुभिः आपश्रौ २१,  
२,१३; -शूनाम् वाश्रौ ३, २,  
१,७.  
२पञ्च-पशु<sup>१३</sup>-शुः शाश्रौ १६, ९,  
२५; वौश्रौ १७, ६२ : १८;  
वैताश्रौ ३७, ७; -शौ काश्रौ  
१६,३,२४.  
पञ्च-पात्र<sup>१४</sup>-त्रः आपश्रौ २१,  
२१, १३; -त्रम् आपश्रौ २१,  
२१,११; हिश्रौ १६,७,१०.  
३पञ्च-पाद<sup>१५</sup>-दम् अश्र ९,९;  
अश्र २,१,१६४.  
पञ्च-प्रतिपाक<sup>१६</sup>-कानि निसू ७,  
३ : २०.  
पञ्च-प्रयाज<sup>१७</sup>-जम् आपश्रौ ८,

a) विप. । तदस्यपरिमाणे ङ् प्र. । b) पा° इति पाठः? यनि. शोधः (तु. उत्तरं स्थलम्) ।  
c) षदशिकप° इति पाठः? यनि. शोधः । d) षकाष्टक° इति पाठः? यनि. शोधः (तु. आपशु ५,५) । e) वैप १  
द्र. । f) षाम् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. मा १७,५४) । g) तु. पागम. । h) विप. । वस. । i) पा°  
इति पाठः? यनि. शोधः । j) =देश-विशेष- [उपचारतः] । समाहारे द्विस. उप. <नदी- + अच् प्र. (पावा ५,४,७५) ।  
k) =तीर्थ-विशेष- । l) वैप २,३ खं. द्र. । m) परस्परं पाभे. । n) विप. । तस्येदमीयः ष्यः प्र.  
(पा ४,१,८५) । o) ष्याग° इति पाठः? यनि. शोधः । p) समाहारे द्विस. । सर्वनामस्थान-संज्ञा- ।



२०, ७; वौश्रौ २४, ११ : १०;  
-जस्य वौश्रौ २४, १० : १६;  
-जे वौश्रौ २५, ३१ : ९; -जेन  
वौश्रौ २४, ११ : ११.

पञ्च-प्रहन- -रनेन कौसू ५७, २१.

पञ्च-प्रस्थ<sup>१</sup>- -स्थम् आग्निगृ २, ३,  
१ : ३.

पञ्च-प्रादे ( श > )शा<sup>१</sup>- -शाम्  
काश्रौ १६, ३, २४; आपश्रौ १६,  
४, ८.

पञ्च-प्रायश्चित्त- -त्तम् वैध २, १, ९.

पञ्च-प्लव- -वानाम् चाश्र ३९ : २.

पञ्च-विल<sup>१</sup>- -लः शाश्रौ १५, १४,  
१२; काश्रौ १५, ९, १; वौश्रौ  
२४, २७ : १४; १६; -कलस्य  
आपश्रौ २, ७, ९; २०, २५, २;  
वौश्रौ; -लेन आपश्रौ २०,  
२५, १.

पञ्च-भाग- > श्रौ ( य > )या-  
-याः आपश्रु ११, ७; १०.

पञ्च-भूता ( त-अ )धिपति- -तये  
वैगृ ५, ३ : २११.

पञ्च-भेद- -दाः चंब्यू २ : १४.

पञ्च-म, मा<sup>१</sup>- -मः शाश्रौ ९, २४,  
५; १६, २४, २०; काश्रौ; या  
३, ८; -मम् आश्रौ ५, ८, ३;  
शाश्रौ १, १०, ६; ७, १४, ७××;  
काश्रौ; -मस्य आश्रौ ७, ७,  
५××; शाश्रौ; -माः वौश्रौ  
२४, २७ : १२१; २६, ११ :  
२७; शैशि; -मात् लाश्रौ १०,  
६, १३; ७, १३; निसू; -मान्  
माशि १२, १०; -मानि वैश्रौ  
१, १ : १९; -मायाम् वौश्रु ५:  
२०; -मे आश्रौ १, ५, २४; ७,

११, २९××; शाश्रौ; या १४, ६;  
-मेन आश्रौ १०, ९, ८; आपश्रौ;  
-मेपु शुप्रा ४, १६३; १६४;  
-मैः लाश्रौ ७, ७, १८; शैशि.

पञ्चमी<sup>१</sup>- -मी शाश्रौ ६,  
६, ८××; काश्रौ; पा २, १, ३७;  
३, १०; २४; २८; ४२;  
पावा ६, १, २; -मीः वौश्रु  
१, २, १३; -मीभिः वौश्रु ११ :  
१; -मीम् आश्रौ २, ४, १४;  
काश्रौ ७, १, २१; आपश्रौ; -म्यः  
काश्रौ १७, ८, १४; आपश्रु १७,  
२; वौश्रु ८ : १७××; हिश्रु ५,  
४०; -म्या आपश्रौ १९, १७,  
५; वौश्रौ १०, २९ : ६; वैश्रौ;  
पा २, १, १२; पावा २, २, १८<sup>१</sup>;  
-म्याः काश्रौ १८, ४, १२;  
आपश्रौ १७, ४, ९; वैश्रौ; पा ५,  
३, ७; ४, ४४; ६, ३, २; ७, १,  
३१; ८, ३, ५१; पावा २,  
४, ८३; -म्याम् आश्रौ २,  
१७, १; २०, १; शाश्रौ; या ५,  
२३; पा ३, २, ९८; -म्यौ आपश्रु  
१६, १४; हिश्रु ५, ३७.

पञ्चमी-कर्मन्<sup>१</sup>-  
-मार्णम् या १, ७.

पञ्चमी-निर्दिष्ट-  
-ष्टात् पावा ३, १, २; ६, १, ८३;  
८, २, ४२.

पञ्चमी-निर्देश-  
-शः पावा १, १, ६७; -शात्  
पावा ३, १, १; ४, ४, ८२××.

पञ्चमी-प्रकरण- -णे  
पावा ६, ३, २.

पञ्चमी-प्रतिषेध-

-धः पावा २, ३, ३५; -धे पावा  
२, ४, ८३.

पञ्चमी-प्रभृति-  
-ति गौपि २, २, ३; गौध १५, २.

पञ्चमी-विधान-  
-नम् पावा २, ३, ३२; -ने पावा  
२, ३, २८; ३५.

पञ्चमी-पष्टी- -ष्ठोः  
अप्रा २, २, २.

पञ्चमी-सूत्र- -त्रे  
कप्र ३, ६, २.

पञ्चम्य(मी-अ)न्त<sup>१</sup>-  
-न्तस्य पावा ६, ४, १.

पञ्चम्य(मी-अ)  
न्या- -न्ये ऋअ २, १, ८५;  
११०.

पञ्चम्य(मी-अ)  
भाव- -वः पावा २, ४, ८३.

पञ्चम्य(मी-अ)र्थ-  
-र्थे या ६, १.

पञ्चम्यर्थ-प्रेक्षा  
-क्षा या १, १७.

पञ्चम्या(मी-आ)  
दि- -दि ऋअ २, १, ९१; ८, ४६;

-द्विषु अप ६३, ३, ९.  
पञ्चम्या(मी-आय  
>)द्या- -द्याः ऋअ २, १,  
१८७; १०, ७८.

पञ्चमिक<sup>१</sup>- -कम् निसू  
९, ११ : २७.

पञ्चमिकी- -कीम्  
निसू ८, ६ : १८.

पञ्चम-त्व- -त्वम् नाशि १, ५,  
११.

पञ्चम-प्रभृति- -तिषु वैश्रौ

a) विप. । द्विस. उप. = परिमाण-विशेष- । b) विप. । वस. । c) विप., नाप. [नाशि. प्रभृ.] स्वर-  
विशेष- । d) विप. (तिथि-, विभक्ति- प्रभृ.) । e) तु. पाका. पासि. । f) विप. (मास्तसामन्-) । तस्येदमीयपु  
ठक् प्र. उंसं. (पा ४, ३, १२४) ।

१०, २१: ६; -तीन् वैश्रौ १०,  
२१: ५; -तीनि लाश्रौ ७, १,  
११.

पञ्चम-भाग- -गम् आपशु  
१६, ८; हिद्यु ५, ३०.

पञ्चमभागीय, या<sup>१</sup>- -या  
आपशु ११, ३; हिद्यु ४, ४;  
-या: वैश्रौ १८, १६: ८०;  
८२; वौशु; -याभि: वैश्रौ १८,  
१६: ८३; आपशु १०, ४; ७;  
११, १२; वौशु ८: २०×४;  
हिद्यु; -याया: वौशु ११: ७;  
९; -ये काश्रौ १६, ८, १२.

पञ्चमभागीया (य-अ)र्ध  
पुरुषीय- -ययो: काश्रौ १६,  
८, १३.

पञ्चमभागीया (य-अ)र्ध  
>)र्ध्या- -र्ध्याभि: वौशु १२:  
३.

पञ्चम-न्लेच्छ-संस्पर्श<sup>१</sup>-

-शौ आमिगु २, ७, ७: ५.

पञ्चम-वर्ष- -पेभ्य: वैश्रौ १७,  
११: १०.

पञ्चम-पष्ट<sup>१</sup>- -ष्टयो: ऋप्रा २,  
५९; -ष्टायाम् लाश्रौ ६, ११,  
९; निसू ७, ३: ३३; -ष्टे  
आश्रौ ८, २, ६; लाश्रौ ६, १२,  
१४; ७, १३, ३; निसू ३, ६:  
२३.

पञ्चम-स्य- -स्य: शैशि २६३;  
-स्यम् नाशि १, ४, ९.

पञ्चम-स्यान<sup>१</sup>- -ना: निसू ८,  
१३: ४०.

पञ्चमा(म-अ)भर- -रम् याशि

२, ९५.

पञ्चमा(म-आ)दि- -इय: मैअ  
२४.

पञ्चमा(म-आ)याम<sup>१</sup>- -मम्  
आपशु १६, ३; हिद्यु ५, २४.

पञ्चमा(म-अ)ष्टम- -माभ्याम्  
वैश्रौ १९, ६: ५६; -मौ वौध  
१, ११, १३.

पञ्चमा (म-अ)हन्-> पाञ्च-  
माहिक- -कानि शाश्रौ १५,  
८, २.

पञ्च-मयूख<sup>१</sup>- -खम् कौसू १०७,  
२१.

पञ्च-महायज्ञ- -ज्ञाय वैगृ ३, ७: ८.

पञ्चमहायज्ञा (ज्ञ-अ)नुष्ठान-  
-नम् वैगृ ६, १९: २.

पञ्च-माप-> पञ्चमाप (क>)  
की<sup>१</sup>- की<sup>१</sup> वौध १, ५, ७८.

पञ्चमापि (क>) की<sup>१</sup>- की<sup>१</sup>  
गौध १२, २६.

पञ्च-यज्ञ-विधान- -नम् शंघ  
१३१.

पञ्च-योजन->निक- -कम्  
अप ६५, २, १२.

पञ्च-योजन्य- -न्य: अप ६१, १,  
२६.

पञ्च-रात्र<sup>१</sup>- -त्रम् मागृ १, ४, १७;  
गौपि; -त्रस्य आपश्रौ २२, १४,  
६; हिद्यु १७, ६, ३; निसू ८,  
१०: १४; -त्रा: आश्रौ १०,  
२, २८; -त्राणाम् आश्रौ ११,  
४, २; ३; -त्रात् या १४, ६;  
-त्राय वौश्रौ १६, २९: २;  
-त्रे हिद्यु १३, २, ३; लाश्रौ ९,

१२, १५; -त्रेण शाश्रौ १६,  
२४, १; २१; निसू ३, ७: ११;  
८, १२: २२.

पञ्चरात्र-प्रवृत्ति- -तय: निसू  
९, ८: २२.

पञ्चरात्रो(त्र-उ)पजन<sup>१</sup>- -न:  
आश्रौ ११, ४, ६; -नम् आश्रौ  
११, २, १५; ३, ५; ११.

पञ्च(ञ-ऋ)र्च, र्चा<sup>१</sup>- -र्च: वैताश्रौ  
३२, २; ३३, ४; गोयु; -र्चम्  
निसू ७, ४: २; कौयु; अश्र ७,  
३८<sup>१</sup>; -र्चा वृदे ५, ८२; -र्चानि  
अश्र २, १९; अप २: ६४; ८२;

-र्चं वृदे ४, १३६; ५, २८;  
अश्र ६, १२३; -र्चं वौश्रौ  
१०, १४: २; २२, ३: ११;

वैश्रौ; -र्चभ्य: अप ४६, १०,  
२१; -र्चौ अप ४: १७.

पञ्चर्चा (र्च-२आ)द्य- -द्य: अप  
४: ३.

१पञ्च(ञ-ऋ)र्तु->र्तु-ता-  
-तया या ४, २७.

२पञ्च(ञ-ऋ)र्तु<sup>१</sup>- -र्तु: निसू ७,  
३: २०.

पञ्च-वर्ग<sup>१</sup>- -र्गा: काश्रौ ९, ४,  
१६; ऋप्रा १, ८.

पञ्च-वर्जम् अप २: ४.

पञ्च-वर्ण, र्णा<sup>१</sup>- -र्णा अप ७०<sup>३</sup>,  
११, ८; -र्णा: काश्रौ २२, ९,  
१३; -र्णानि अप ७२, ३, १४.

३पञ्च-वर्ष- -पर्णाम् वेज्यो ११;  
-पेपु शाश्रौ ३, १८, २०.

पञ्चवर्ष-पर्यधिकृत- -ता:  
आश्रौ १०, ३, २९.

a) विप. (अभरतिप्रमाण-] इष्टका-) । b) द्वस. > पस. पूष. = निपादादि- । c) द्वस. ।

d) विप. । वस. । e) वैप १ द. । f) पञ्चमापिकी- इत्यस्य वावि. द. । g) परस्परं पाभे. ।

h) विप. । वृद्धयर्थे ष्टु>हकः प्र. (पा ५, १, ४७) । i) = याग- । तद्विधायै समाहारे च द्विस. । j) विप.,

नाप. । k) च्च इति पाठः? यनि. शोधः (तु. प्रकरणम्) ।

२पञ्च-वर्ष, पा<sup>१</sup>- -र्षम् आपध १,  
१४, १३; हिध १, ४, ४५; -र्षाः  
काश्रौ २२, ९, १२; वाश्रौ ३,  
४, ३, २०; -र्षान् आपश्रौ २२,  
२०, ११; हिश्रौ १७, ७, २२;  
-र्षात् शंघ ३९२.

पञ्च-वलि<sup>२</sup>- -लिः आपश्रौ १०,  
९, १९; वौश्रौ ६, ५ : १६;  
२१, ७ : २१; -लिम् काश्रौ  
७, ३, २५<sup>३</sup>; भाश्रौ १०, ६,  
१३; हिश्रौ ७, १, ५२.

पञ्च-वात-><sup>४</sup>वातीय<sup>४</sup>- -यम्  
काश्रौ १५, १, १८.

पञ्च-वारुण<sup>५</sup>- -णम् वैगृ १, १७ :  
२; वैध २, १, ९.

पञ्च-वाह-><sup>६</sup>हिन्<sup>६</sup>- -ही  
आपश्रौ १८, ९, १३; वाश्रौ ३,  
३, १, २४; हिश्रौ १३, ३, ३६.

पञ्च-र्विशत्- -शत् वौध १, ४, ९.

पञ्च-र्विशति- -तये शाश्रौ १६,  
१२, १४; -तिः आश्रौ ८, १३,  
३१; शाश्रौ; या ३, ७; १३;  
-तिःऽ-तिः आश्रौ १२, ५, १८;  
शाश्रौ १३, २८, ७; १६, १२,  
१४; -तिम्-माश्रौ ४, ७, ४;  
आमिगृ २, ४, ६ : ७; शंघ; -तेः  
शाश्रौ-१८, १०, २.

पञ्च-र्विश<sup>७</sup>- -शः शाश्रौ १६, १२,  
१०××; वौश्रौ; -शम् आपश्रौ  
२१, १७, १××; वौश्रौ; -शात्  
निसू ८, १३ : १८; भासू २,  
१९; -शे हिश्रौ १८, ३, १३;  
द्राश्रौ ११, ४, १; लाश्रौ.

१पञ्च-र्विश-क<sup>८</sup>- -कम् शंघ  
३७१; विध ९७, १६; या १४, ६१

पञ्च-र्विश-स्तोम<sup>९</sup>- -मम्  
शाश्रौ १६, १२, ९; -मानि निसू  
८, १३ : १६.

२पञ्च-र्विशक<sup>१</sup>- -कम् अश्र ८, ४;  
९, २; १०, ३; अषं ४ : २४.

पञ्च-र्विशति-रात्र<sup>१</sup>- -त्रः वौश्रौ  
१६, ३४ : ३; या १४, ६; -त्रम्  
आश्रौ ११, ३, ११; काश्रौ.

पञ्च-र्विशति-स्तोम- -भाः निसू  
६, ७ : २.

पञ्च-र्विशत्य (ति-अ)त्त(र>)

रा<sup>१</sup>- -रा वौश्रौ २४, १९ : ७;

निसू १, ३ : २४; २, १२ : १९.

पञ्च-र्विशत्य (ति-अ)ङ्गुलि<sup>२</sup><sup>३</sup>-  
-ल्या वैश्रौ १, ३ : २.

पञ्च-र्विशत्य (ति-अ)नुवाक-  
-कात् मागृ १, २३, २३.

पञ्च-र्विशत्य (ति-अ)रत्नि- -त्तयः  
शाश्रौ १६, १२, २.

पञ्च-र्विशत्य (ति-अ)च<sup>४</sup>- -चम्  
शाश्रौ १७, ८, २.

पञ्च-विग्राहम् आश्रौ ३, १, १४.

पञ्च-विध, धा- -धम् शाश्रौ १६,  
२४, १××; वौश्रौ; -धाः

अप ५८<sup>३</sup>, ३, ११; वौध ३, ३, ३;  
चव्यू १:७; -धान् वैगृ ५, १ : ४;

-धाम् आमिगृ २, ४, १० : ३३;  
-धेन निसू १, २ : २.

पञ्च-वृत्- -वृत् कौगृ १, ३, ८;  
शागृ १, ८, २; -वृत्तम् गोगृ १,  
७, १०; द्रागृ १, २; ११.

पञ्च-व्याकरण- पा, पाग ४, २, ६०.

पञ्च-शत- -तम् वौश्रौ १०, १९ :  
२; द्राश्रौ ११, ३, १८; लाश्रौ

४, ३, १८; शंघ २६३.

पञ्च-शरद्->पञ्चशारदीय-

-यः आश्रौ ९, ८, १०; शाश्रौ १४,  
६२, १; काश्रौ; -यम् आश्रौ  
१०, २, २७; -यस्य आश्रौ १०,  
२, २९; -याः मीसू ११, २, ५३;  
-यानाम् वौश्रौ २४, १० : १३;  
-ये लाश्रौ ८, १०, ६; ९, ४,  
२६; १२, १०; -येन आश्रौ ९, ८,  
८; आपश्रौ २०, २५, १; २२,  
२०, ९; वौश्रौ १८, ११ : १;  
हिश्रौ १७, ७, २०.

पञ्चशारदीयवत् आपश्रौ  
२०, २४, ५; २२, २१, १६.

पञ्च-शराव- -वः वैश्रौ २०, ३ :  
७; मीसू ६, ४, २९; -वम्

आश्रौ ३, १०, २७; काश्रौ; -वे  
मीसू ६, ५, १; ६; -वेण आपश्रौ

९, १, ३२; ३३; हिश्रौ १५,  
१, ३७.

पञ्च-शा(खा>)ख<sup>१</sup>- -खेन भागृ  
१, २० : ७<sup>१</sup>; वैगृ ३, ८; ६; हिगृ

१, २४, ३<sup>१</sup>.

पञ्च-शि(खा>)ख<sup>२</sup>- -खः वौगृ २,  
४, १७; अप ४३, ३, ७<sup>१</sup>.

पञ्च-शिखा-><sup>३</sup>खिन्- -खी अप  
४०, २, ९.

पञ्च-पटि- -टिः अप ४७, १, ११;  
३, ६××; चाश्र १७ : १.

पञ्चपटि-वर्ण- -र्णाः शुप्रा ८,  
२५.

पञ्च-संयुत(>)ता- -ता ऋश्र ४,  
२; १०.

१पञ्च-संवत्सर- -रम् शंघ ४०३.  
पञ्चसंवत्सर-मय-><sup>४</sup>मय-युगा  
(ग-अ)ध्यक्ष- -क्षम् वेज्यो १.

a) तद्धिताथे द्विस. । b) विप. । वस. । c) ष्व इति पाठः? यनि. शोधः । d) वैप २, ३खं. द्र. ।  
e) समाहारे द्विस. उप. सास्यदेवतीयः अण प्र. । f) वैप १ द्र. । g) विप. नाप. (स्तोम-). । h) स्वाथे  
कन् प्र. । i) इवुन् प्र. (पा ५, १, २४) । j) विप., नाप. । k) = रज्जु- ।

पञ्चलांस्तरिक<sup>३</sup>- -काणि  
 आपथौ ८, २२, ९<sup>०</sup>; -केषु  
 आपथौ ८, २२, १६.  
 २पञ्च-संवत्सर<sup>०</sup>- -राणि हिश्रौ ५,  
 ६, १३<sup>०</sup>.  
 पञ्च-संचर- -रेषु नीसू ७, १, १७.  
 पञ्च-सप्तति- -तिः वाधूश्रौ ४,  
 ९२ : ४; अर्षं ४ : ३७; -तिः  
 ऽ-तिः वाधूश्रौ ३, ७९ : १०.  
 पञ्च-सप्त-नवा(इ-अ)न्यतम- -मैः  
 वैध २, ३, २.  
 पञ्च-सप्तम- -मौ अर्षं २ : १५.  
 पञ्च-सवन<sup>०</sup>- -नः आपथौ १४,  
 १९, ३.  
 पञ्च-सूक्त<sup>०</sup>- -क्ताः अर्षं २ : ३.  
 पञ्च-स्तोम<sup>०</sup>- -सम् वौश्रौ २६,  
 ३३ : २.  
 पञ्च-स्थान-स्थित- -त्वेन  
 नाशि ६, ५, १२.  
 पञ्च-स्थानो (न-उ)त्थित- -तस्य  
 नाशि ६, ५, ११<sup>०</sup>; -तान् नाशि  
 ६, ५, १२<sup>१</sup>.  
 पञ्च-हविस्<sup>०</sup>- -विः शांश्रौ ९, २४,  
 ४; ६; वौश्रौ; -विषम् शांश्रौ २,  
 ४, ६; वौश्रौ १७, २३ : ५××;  
 हिपि २० : ३; -विषा वौश्रौ १२,  
 १९ : १; १८, ५ : १६; ६ : १७.  
 १पञ्च-हस्त- > <sup>०</sup>स्ता (स्त-आ)  
 य(त>)ता- -ता विव १०, ३.  
 २पञ्च-हस्त- -स्तम् अर्ष १८, १, ५.  
 पञ्च-हायन- -नेभ्यः आपथौ १८,  
 ३, ९.  
 पञ्च-होतृ<sup>०</sup>- -तरि शांश्रौ १०,

१६, १; -ता आपथौ ८, २२,  
 १६; वौश्रौ; -तारः आपथौ  
 २१, ११, ५; हिश्रौ १६, ४, ३;  
 -तारम् शांश्रौ १०; १६, २;  
 आपथौ ४, ९, १२××; वौश्रौ;  
 -तुः आपथौ १३, २, ६; २१,  
 १०, ७; वौश्रौ; -त्रा आपथौ  
 २, ११, ५; ४, ८, ७××; वौश्रौ.  
 पञ्च-हो(त्रा)>त्र<sup>०</sup>->त्रै(त्र-इ).  
 एक- -काः वौश्रौ १९, ७ : २०.  
 १पञ्चा(इ-अ)क्षर- > शी- री  
 वेज्यो ३९.  
 पञ्चाक्षर-शस्(ः) लाश्रौ ७, ७,  
 १९.  
 २पञ्चा(इ-अ)क्षर<sup>०</sup>- -रः निस् ३,  
 १३ : ९; ऋप्रा १६, ३६; -रम्  
 वाधूश्रौ ४, १०० : ६; वाश्रौ  
 ३, २, २, २३; -राणि ह्रस् १,  
 ६ : २६; निस् ४, १ : २५;  
 टनिस् ६ : ३१; -रान् ऋप्रा  
 १७, ५०; -राभ्याम् शांश्रौ १०,  
 १३, २; -रेण आपथौ ८, १२,  
 १६; शांश्रौ ९, ६, २-५; १०,  
 १३, २; वाधूश्रौ ४, १०० : २५,  
 टनिस् २ : १; -रैः शांश्रौ ७,  
 २७, २५; -रौ निस् २, १२ : २३.  
 पञ्चाक्षर-न्ता- -तायाः निस् १,  
 १ : ५.  
 पञ्चाक्षर-पा(द>)दा<sup>०</sup>- -दा  
 निस् १, ३ : २४; २, १२ :  
 १९; -दाः निस् १, ३ : २२.  
 १पञ्चा(इ-अ)ग्नि- -ग्निभिः वैध ७,  
 १ : १३; वैध १, ६, १; -ग्नीन्

वैश्रौ १, १४ : १७; वैध-२,  
 ४, ३.  
 पञ्चाग्नि-मध्य-शायिन्-  
 -यिनः वैध १, ८, १.  
 २पञ्चा(इ-अ)ग्नि<sup>०</sup>- -ग्निः अर्ष ४४,  
 २, ४; वाध ३, १९; शंघ.  
 पञ्चा(इ-अ)ग्नी<sup>०</sup>- -ह्या  
 काठश्रौ ९२<sup>१</sup>.  
 पञ्चा(इ-अ)हुलि<sup>०</sup>- > प्ल्य<sup>१</sup>-  
 -त्यम् याशि १, ६२.  
 पञ्चा(इ-अ)हुलि- > प्लि-वि-  
 स्ता(र>)रा<sup>०</sup>- -रा वैश्रौ १,  
 ३ : ८; वैध १, ६, ५.  
 पञ्चा(इ-अ)हुष्ट- -ष्टम् आग्नि  
 २, ३, १ : १४.  
 पञ्चा(इ-अ)धि(क>)का<sup>०</sup>- -का  
 ऋश्र २, १, ११२; ११६××.  
 पञ्चा(इ-अ)ध्या(व>)यी- -यी  
 शुश्र ४, ५९.  
 पञ्चा(इ-अ)नुवाक- -कैः अर्ष  
 ४६, ९, ११.  
 पञ्चा(इ-अ)न्त<sup>०</sup>- -न्ते काश्रौ १८,  
 १, ३; मैत्र २६.  
 पञ्चा(इ-अ)पत्य<sup>०</sup>- -त्यः अर्ष ३२,  
 १, २१; -त्यानि अर्ष ३२, १,  
 २१<sup>२</sup>.  
 पञ्चा(इ-अ)पवर्ग<sup>०</sup>- -र्गः काश्रौ  
 १५, ४, २; आपथौ १८, ८, ३;  
 २२, १८; हिश्रौ १३, ३, ५; ७,  
 ३५.  
 १पञ्चा(इ-अ)रत्नि<sup>०</sup>- -रत्नी वैश्रौ  
 १०, २ : ५<sup>०</sup>.

a) तेननिर्गृहीतमित्यर्थे ढञ् प्र., उप. वृद्धिः(पा ७, ३, १५) च। b) परस्परं पाभे। c) तेननिर्गृहीतमित्यस्य प्र. लुक् ढसं. (पा ५, १, ८८) विवृ. भाष्यकारः वस. इति। d) विप.। वस.। e) अनत्यतः इति लासं.। f) नोच्छ्रितः इति लासं.। g) वैष १, १३०२। द्र.। h) = मन्त्र-विशेष-। वस.। i) समाहारे द्विस.। j) स्वायं यत् प्र.। k) वृत्त. वा वस. वा। l) पूष. = पद्म-। m) वैष १ द्र.। n) समाहारे द्विज. द्र.। एतदनु चतुरस्रनौ, स्मरत्नौ इत्यत्र शोध इष्टः।

१पञ्चारत्नि-प्रभृति- -ति माश्रौ  
१,८,१,१५.  
पञ्चारत्न्या(त्नि-श्रा)दि-  
प्रमाण<sup>१</sup>- -णम् वाश्रौ १,६,१,७.  
२पञ्चा(ञ्च-श्र)रत्नि- -त्तिः काश्रौ  
६,१,२९; १६, ८, १६; वौश्रौ;  
-त्तिम् आपश्रौ ७,२,११; वौश्रौ  
४,१ : २७.  
३पञ्चारत्नि-प्रभृति- -त्यः वौश्रौ  
२४,३५ : ५.  
पञ्चा(ञ्च-श्रा)र्वैष<sup>२</sup>- -त्रः आश्रौ  
१२, १०, ६; आपश्रौ; -याः  
वौश्रौप्र १ : २; -याणाम्  
वौश्रौप्र २ : ३.  
पञ्चा(ञ्च-श्र)वत्त- -त्तः आपश्रौ  
८,१५,५; वैश्रौ ९,७ : ८; -त्तम्  
आपश्रौ २,१८,२<sup>३</sup>; ११,१,११;  
वौश्रौ; -त्तस्य वौश्रौ २०, ६ :  
१; -त्ता आपश्रौ ७, २०, १०;  
११; भाश्रौ ७,१६,४,५; -त्ताम्  
काश्रौ ३,४,३; आपश्रौ ३, १,  
६; वैश्रौ ६, ११ : २; हिश्रौ २,  
३,७; -त्तायाः हिश्रौ २,३, १२.  
पञ्चावत्त-वत्त मीस् ६,७,२८.  
पञ्चावत्तिन्- -त्तिनः आपश्रौ  
२, १८; ९; २१, ३××; वौश्रौ;  
-त्तिनाम् आपश्रौ ८, १५, ५;  
वौश्रौ २०, ५ : ३३××; भाश्रौ;  
-त्ती वाश्रौ १,१, १, ३०; गोष्ट  
१,८,७; ११; द्राष्ट २,१, २०.  
पञ्चावत्तीय- -यम् भाशि ८७.  
पञ्चा(ञ्च-श्र)वदान<sup>४</sup>- -नः भाश्रौ २,  
१७, ९; -नस्य भाश्रौ २, १८,  
१२; १९, ३××; माश्रौ.  
पञ्चावदान-त्व- -त्वात् मीस्  
१०,७,५.

पञ्चा(ञ्च-श्र)वसान(न>)ना<sup>५</sup>- -नाः  
अप ३ : ७०.  
पञ्चा-शत्- -शत् शाश्रौ १५, २६,  
१<sup>६</sup>; हिश्रौ; -शत्ऽ-शत् आपश्रौ  
२२,८, ६; -शत्ः शाश्रौ १३,  
२८,८; काश्रौ; -शत्म् शाश्रौ  
१४,९, ६; आपश्रौ; -शत्म्ऽ-  
शत्म् काश्रौ २२,७,१४; काश्रौसं  
२९ : १२; -शता आपश्रौ १८,  
१४, ६; वौश्रौ; -शताऽ-शता  
आपश्रौ ९,११,२३; आमिष्ट ३,  
१०, ५ : ६; वौपि ३, ८, १;  
-शते वाश्रौ ३,४,२,८.  
पञ्चाशच्-च्च( <श)स(ः) आश्रौ  
९,२, २५.  
पञ्चाशत्-पल-> °लिक<sup>६</sup>-  
-कम् विध ११,५.  
पञ्चाशत्-प्रभृति- -ति वाश्रौ  
३,४,२,८.  
पञ्चाशद्-अक्ष(र>)रा<sup>७</sup>-  
-रा निसू ३,१२ : ४८.  
पञ्चाशद्-ऊ(न>)ना- -ना  
काश्रौ १७,७,२१.  
पञ्चाशद्-दिन- -नात् वैष्ट ३,  
१९ : १.  
पञ्चाशद्-भाग- -गः गौध १०,  
२४.  
पञ्चाशद्-रात्र-प्रभृति- -तीनि  
लाश्रौ ११,४,८.  
पञ्चाशद्-वर्ष-ता- -तायाः  
आश्रौ २,७,६.  
पञ्चा(ञ्च-श्र)शीति- -तिः ऋअ ३,  
३७.  
पञ्चाशीति-शत्- -तम् आपश्रौ  
१९,११,३; वौश्रौ १९,२ : ११;  
हिश्रौ २३, २, ३; आमिष्ट ३,

८,३ : २३; वौपि १,१६ : ९.  
पञ्चा(ञ्च-श्र)ह<sup>८</sup>- -हः शाश्रौ १३,  
१७,१; काश्रौ; -हम् वौश्रौ  
१८,३२ : ६; २५,२७ : ११××;  
द्राश्रौ; -हस्य लाश्रौ १०,४, १;  
७; निसू ९,१:४८; -हाः काश्रौ  
२३, ४, १××; आपश्रौ;  
-हान् निसू ९, १३ : ९; ३४;  
१०, १ : १५; -हानाम् लाश्रौ  
१०,४,१; -हे लाश्रौ ८,१,१४;  
निसू ५, ३ : ३६; आमिष्ट ३,४,  
५ : २; -हेन वौश्रौ २६, ३ : २;  
हिश्रौ १७,७, १३; -हेषु लाश्रौ  
१०,४, ३; वैताश्रौ ४१, १४;  
वैष्ट ३, २ : २; -हौ निसू ९,  
१३ : ३६.  
पञ्चाह-क्लस- -सम् निसू  
१०,१ : १३.  
१पञ्चाह-तन्त्र- -न्त्राणि निसू  
८,१० : २०.  
२पञ्चाह-तन्त्र<sup>९</sup>- -न्त्रः निसू ९,  
११ : १०.  
पञ्चाह-वि(ध>)धा- -धाः  
निसू ९, ११ : ८.  
पञ्चाह-विहित- -तम् निसू ९,  
१३ : ३.  
पञ्चाहा(ह-अ)र्व- -र्वे आश्रौ  
११,१,१२; शाश्रौ १३, १५,८;  
काश्रौ २४, १, ८; निसू ९,  
१० : ९.  
पञ्चाहिक- -कानि काश्रौ ४६.  
पञ्चा(ञ्च-श्र)हाव<sup>१०</sup>- -वानि आश्रौ  
५,१०; १२.  
पञ्चा(ञ्च-श्र)हाव-परिमितत्व-  
-त्वात् आश्रौ ८,६, १८.  
प(ञ्च-क>)ञ्चिका<sup>११</sup>- -का वौश्रौ

a) विप. । वस. > वस. । b) विप. । वस. । c) विप. । तदस्य परिमाणमित्यर्थे ऋत्र प्र. उरसं.  
(पा ५,१,५४) । d) वैप १ द. । e) = रज्जु-विशेष- । प्रमाणार्थे कम् प्र. (पा ५,१,२२) ।  
वैप४-तृ-३

२६, २२: १७; आपणु ५, २;  
 हिद्यु २, ९.  
 पञ्चिन्- -न्चिनि लाश्रौ ६, ६, १४;  
 -ञ्चि लाश्रौ ८, ५, २३.  
 पञ्चि-प्रभृति- -तय: निसू १,  
 ८: ३५; ९: १३.  
 पञ्चे(ञ-इ)ध्म-> ष्मीय<sup>०</sup>- -यस्य  
 वौश्रौ २२, १६: २७; -येन  
 आपश्रौ १८, ९, १०; वौश्रौ १२,  
 ४: १; वाश्रौ ३, ३, १, १६;  
 हिश्रौ १३, ३, ३१; ३६.  
 पञ्चो(ञ-उ)क्त- -क्तम् जैश्रौ २६:  
 १४.  
 पञ्चो(ञ-उ)दि<sup>०</sup>- -दिम् आपश्रौ  
 १५, २, १४; १६, ४, ७; भाश्रौ  
 ११, २, २३; हिश्रौ ११, १, ५१;  
 २४, १, १५; -दीन् वैश्रौ १३,  
 ३: १२.  
 पञ्चो(ञ-ऊन<)>ना- -ना ऋश्र २,  
 १, २४; ३२xx; अर्षं ४: ३४.  
 पञ्चो(ञ-ओ)दन<sup>०</sup>- -नम् कौसू  
 ६४, १८; अश्र ४, १४; -नेन  
 कौसू ६४, २८.  
 पञ्चौदन-वर्जम् कौसू ६३, २४.  
 २पञ्चन्<sup>०</sup>- (>पञ्चि-पा.) पाग ४,  
 १, ९६.  
 १पञ्चाग्रायणपण्यै वाश्रौ ३, ३, १,  
 १४.  
 १पञ्चान्तेनव<sup>०</sup> मैश्र १३.  
 १पञ्चाप्रिय<sup>०</sup>- -यस्य चाश्र ३८: १६.  
 १पञ्चाल<sup>०</sup>- पाट १, ११८; पाग ४,  
 १, ८६; -ला: वौश्रौ १८, २६:  
 ९; उनिसू १: २२; -फंला: ०

आपश्रौ १८, १२, ७; हिश्रौ १३,  
 ५, ४; -लान्<sup>०</sup> वौश्रौ १८, २६:  
 ७, ८; -लानाम्<sup>०</sup> ऋश्र २, ३३;  
 -लेषु<sup>०</sup> वौश्रौ १८, २६: १२; १९.  
 १पञ्चाल<sup>०</sup>- पा. ४, १, ८६;  
 -ल: हिश्रौ १३, ५, ४; -लम्<sup>०</sup>  
 आपश्रौ १८, १२, ७; अश्र १,  
 ८, ३.  
 पञ्चाल-राज- -ज: वाधूश्रौ  
 ४, ३७: ३.  
 पञ्चाल-ज्येष्ठ- -ष्ठा: अश्र १, ८, १.  
 पञ्चाल-पद-वृत्ति- -त्ति: शाश्रौ  
 १२, १३, ६.  
 पञ्चाल-राज- -जानाम् वौश्रौ १८,  
 ३८: १८.  
 २पञ्चाल<sup>०</sup>- पाग ४, १, ९९.  
 २पञ्चाल- -लस्य चाश्र १६:  
 १२; -लम् कौश्र २, ५, ३; -ला:  
 वौश्रौ ४१: १२; निसू १, २: ३.  
 पञ्चालायन- पा ४, १, ९९.  
 पञ्जर<sup>०</sup>- पाउमो २, ३, ३८; पाग ४,  
 २, ८०; -रेषु वौश्रौ १५, १६:  
 ८; वाश्रौ ३, ४, ३, २२.  
 पाक्षर्य- पा ४, २, ८०.  
 ✓पट् (वधा.) पाधा. भ्वा. पर. गतौ;  
 जुरा. उभ. भापायां ग्रन्थे च,  
 पाटयेत् विध ६, २५.  
 पट<sup>०</sup>- पाग २, ४, ३१; ४, १, ४१;  
 ५, ४, २९; -टे अश्र १, ४४, ८;  
 विध ३, ८२.  
 पटी- पा ४, १, ४१.  
 पट-क- पा ५, ४, २९.  
 पट-कर्त्तृ- -र्ता वैध ३, १४, १.

पटा(ट-आ)दि<sup>०</sup>- -दिषु कप्र १-  
 १, १४; -दीनाम् ऋत ४, ३, ४.  
 पाटन- -ने कोष २७: ७.  
 पाटि(त<)>ता- -ता कप्र १, ७, १४;  
 ८, १७.  
 पाट्यमा(न<)>ना- -ना: विध ४३,  
 ३५.  
 पट<sup>०</sup> पाग १, ४, ५७.  
 पटच्चर- (> पाटच्चर- पा.) पाग  
 ४, २, ११०.  
 पटक्त- (> पक्त-कन्थ- पा.) पाग  
 ६, २, १२५.  
 पटपटा<sup>०</sup> पाग १, ४, ५७.  
 पटर<sup>०</sup>- पाग ४, १, ४१; -र: वौश्रौ  
 १८, ४६: ११.  
 पटरी- पा ४, १, ४१.  
 पटल<sup>०</sup>- पाउमो २, ३, ९७; पाग ४,  
 १, ४१; -लम् आश्रौ ४, ६, ३;  
 -ले शाश्रौ ११, ९, १३; १३, २१,  
 २; २२, ३; ऋश्र ४, २०; ६, १६.  
 पटली- पा ४, १, ४१.  
 पटह<sup>०</sup>- पाग २, ४, ३१; -हा: अश्र  
 ७०<sup>३</sup>, २, २; ७०<sup>३</sup>, ११, ७.  
 पटाक<sup>०</sup>- पाग २, ४, ६३.  
 पटाका<sup>०</sup>- पाउमो २, २, १३.  
 पटिस- पाउमो २, ३, १७९.  
 पटीर- पाउ ४, ३०.  
 पटु<sup>०</sup>- पाउ १, १८; पाग २, १, ४०;  
 ५९; ७०; ५, १, १२२; ६, २,  
 २४.  
 पटिमन्-, पटु-त्ता-, पटु-त्व-,  
 पाटव- पा ५, १, १२२.  
 पटूर<sup>०</sup>- -रौ अश्र ३, ४, ११.

a) = कर्म-विशेष- । b) विप. । वस. । c) वैप १ द. । d) व्यप. । व्यु. ? । e) (पञ्च अन्ते येषां तादृशा नव) = चतुर्दश (तु. मैश्र २०) । f) पा ४, १, १६८ । g) सपा. °ल: <> °लम् इति पाभे. । h) नाप. । व्यु. ? । i) = वस्त्र- । वच् प्र. (पा ३, १, १३४) । j) तु. पागम. । k) अर्थ: व्यु. च ? । l) = खण्ड-, छदि- । व्यु. ? । पट- + ल- (<√ला) वा <√पट् वेति अभा. । m) = वाद्य-भेद- । व्यु. ? । पट- + ह- (<√हन् वा √ह्य वा) इति अभा. । n) = पटाका- । o) वैप २, ३३. द. ।

पट्ट<sup>a</sup> - > पट्ट-बन्ध<sup>b</sup> - न्धः वैध ३,  
११,६.

?पट्टनीत- -तम् वैश्री १०,९ : १४.

पट्टार- (>पाट्टारक- पा.) पाग ४,  
२, १२७.

पट्टव- पाउ १,१५३.

✓पट्ट- पाधा. भ्वा. पर. व्यक्तायां-  
वाचि, पठते अप ९,४, ७; ३१,  
१०, ४; शैशि ३६२; आज्यो  
१४,१२; पठति अप ६६,३, ४;  
कप्र २,४,१८; अत्र ८,१; पठन्ति  
आशि ६,१; ९; पठेत् कप्र ३,९,  
१५; अप; पठेयुः शंघ २११.

पठ्यते काठश्री ४; ४७; काश्रीसं;  
पठ्यन्ते काठश्री ४६; ऋअ ३, ३९.

पाठयति अत्र ८,१.

पठत्- -ठन् कप्र २, ४, १३३;  
१४<sup>२</sup>xx; अप.

पठि- पाउना ४,१२९.

पठित- पाग ५,२,८८; -तः आश्री  
१,११,१०; आमिष्ट १,२, १ :  
१८; वौग ३,१,२५; अप्रा २,३,  
६; उस् ८,३६; -तानाम् पावा  
१,१,२७; -तानि अप्रा ३,४, १.  
पठित-त्व- -त्वात् पावा १, १,  
३४.

पठितिन्- पा ५,२,८८.

पाठ- -ठः पावा २,२, ३६; ४, २,  
१३३; -ठम् अप २८,१,२; -ठाः  
आपध १,१२, १०; हिघ १,४,  
१०; -ठात् पावा १, १, २७;  
३८; -ठे पाशि २५; याशि २,९८;  
कौशि २५; -ठेन पावा १,३,१.

पाठ-दोष- -पाः १, ३०.

पाठ-विशेषण- -णम् पावा ८,  
१,२७.

पाठक- -के शैशि २१२; याशि २,  
८३.

पाठका (क-अ)घम- -माः शैशि  
२१०; याशि २, ८२.

पाठयत्- -यन् अप ६९,९,३.

?पट्ट (ट्ट, ड्ट, श्ट)<sup>c</sup> - ष्टपट्टिभः आपश्री  
१३,७,१६<sup>d</sup>; वाश्री १,६,५,५<sup>e</sup>;  
कौसू ४४; १७<sup>f</sup>; निघ ४,२; या  
५,३.

पट्ट-बी,वी<sup>g</sup>।श<sup>h</sup> - शम् वौश्री १५,  
१५ : १८; ३८ : ९; वाधुश्री ३,  
७६ : २७; दंवि २,३<sup>h</sup>; ष्टशात्  
आपश्री ७,२१,६; वौश्री ४,७ :  
२५; भाश्री ७, १६, १३; हिश्री  
४,४, ४४.

✓पण<sup>i</sup> पाधा. भ्वा. आत्म. व्यवहारे  
स्तुतौ च, पणते काश्री ७,८,१;  
१०; आपश्री.

पणायते अप ४८,९<sup>h</sup>; ष्टपणायति  
अप ४८,२७; निघ ३,१४.

पण<sup>i</sup>- पाग ५,१,२०; -णः पा ३, ३,  
६६; -णाः शंघ ३२२; -णान् विघ  
५, ३५xx; -णानाम् विघ ४,१४.

पाणिक- पा ५,१,२०.

पण-पाद-माघ-शत- -तात् पा ५,  
१,३४.

पण-शत- -तम् विघ ५, १०६;  
११०; १२८; १५४; १५८.

पणन- -नात् या २, १७; -ने वौश्री  
२१, १२ : १३; -नेयु आपश्री

१०, २५, ५.

पणमान- -नः वैश्री १, १५ : २;  
वौध २,१,५४; -नम् आपध २,  
१०,८; हिघ २,४,८.

पणस्<sup>1</sup>- > √पणस्य, पणस्यति अप  
४८,९<sup>h</sup>.

पणस- पाउ ३,११७.

पणित- -तान् वैश्री १२, १८ : १०.

पणित्वा वाध १, ३५.

पण्य<sup>o</sup>- पा ३, १, १०१; -ण्यम्  
आपश्री २३, ५; कौसू; या २,  
१७; पा ४,४,५१; -ण्यस्य भाग्यु  
२, २६ : ६; हिग १, १४, ९;  
-ण्यात् आपश्री ४, १२, ६<sup>h</sup>;

-ण्यानाम् आपध १, २०, ११;  
हिघ १, ६, २५; -ण्ये वौध १०,  
२५; -ण्येनः वाध २, २४;

-ण्येभ्यः गोश्री ४,८,२३; -ण्येषु  
शंघ १४.

पण्य-कम्बल- पा, पावा ६, २, ४२.

पण्य-काम- -मः कौसू ५९, ६;  
अत्र ३, १५.

पण्य-त(र>)रा<sup>1</sup>- -रा आपश्री  
४, १२, ६<sup>h</sup>.

पण्य-विक्रयण- -णम् आज्यो  
७, ३.

पण्य-सिद्धि- -द्धिः हिग १, १४,  
८.

पण्य-होम- -मम् गोश्री ४, ८,  
२०; द्राग ४, ३, ७.

पण्यमान- -नः अप्राय ३, १.

पणव<sup>k</sup>- पाउभो २, ३, १३४; पाग २,  
४, ३१; -वम् काश्री १७, २.

a) = किरिट- वा उष्णीप-वा. । व्यु. ? । b) नाप. । c) वैप १ द्र. । d) पाभे. वैप १,१९०१ ७  
द्र. । e) सपा. तै ३,१,४; ३ मंत्रा २,२,११ शाश्री ४,१७,१२ काश्री २५,९,१३ भाश्री १,८,३,३४ पट्टिः इति  
पाभे. । f) भाश्री. दंवि. पाठः । g) या २, २६ शौच ४, ९७ पा २, ३; ५७ परामृष्टः द्र. । h) = तुलामान-  
विशेष- वा परिमाणविशेष- वा । i) भाप. । धा. स्तुतौ वृत्तिः । j) पाभे. वैप १,१८८६ ५ द्र. । k) = वाच-

पणि<sup>a</sup>- पाठ ४, ११८; -णयः ऋअ  
२, १०, १०८; वृदे ८, २४; २६;  
सुप्रा ४, ७७; -णिः शांश्रौ १२,  
२०, २१; अप ४८, १२८; या  
२, १७४; -णिना या २, १७४;  
-णिभिः माश्रौ १, ३, ४, २६;  
वाश्रौ १, ३, ६, १९; ऋअ २, १०,  
१०८; या ११, २५; तैप्रा १३,  
१०; -णिम् तैप्रा १३, १०;  
-णीन् वृदे ८, ३५; ३६; ३८;  
या ६, २६; शैशि २२२.

पणित- पणित्वा √पण् द्र.

पणिन्<sup>b</sup>- पाग ४, १, ९६.

पाणित- पा ६, ४, १६५.

पाणिनि<sup>c</sup>- पा ४, १, ९६; -तिः

वौश्रौष ३: ७; अप ४३, ४,  
१६; -नेः पावा ६, १, १, ७, १,  
२; ८, ४, ६८.

पाणिनीय- न्यम् पाशि १.

पाणिनीय-रौढीय- पाग २,  
२, ३१०.

√पण् पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ;  
चुरा. पर. नाशने.

पण्डक<sup>d</sup>- कः आपश्रौ १२, ७, ११;  
१३, १५; १; माश्रौ ५, २, १;  
२६; या ६, ३२४; -कम् माश्रौ  
५, २, १, २६; -काय आपश्रौ  
१८, १५, ६.

परण्डग<sup>e</sup>- नाः या ६, ३२; -नाः अप्रा  
३, ४, ११; -गाय वाश्रौ ३, २, २,  
४४.

पण्डर-(> श्री-पा.) पाग ४, १, ४१०

पण्डा<sup>f</sup>- पाठ १, ११४; पाग ५, २, ३६.

पण्डित-पा ५, २, ३६; पाग २, १,  
४०××; -तः शंघ २१९;  
आपध १, २३, ३; विघ ८२,  
३०; हिघ १, ६, ११; -ताः  
माशि १६, १३; याशि २, ८४;  
नाशि १, ३, १३; २, ३, ११.  
पण्डित-ता-, पण्डित-त्व-,  
पण्डितमन्-, पाण्डित्य- पा ५,  
१, १२३.

पण्डारक<sup>g</sup>- पाग २, ४, ६९.

पण्य- प्रसृ. √पण् द्र.

√पत्<sup>h</sup> पाधा. भ्वा. पर. गतौ; दिवा.

आत्म. ऐवर्थे; चुरा. उभ. गतौ;

पतते अप ७०, ३२, १२××;

पतति आपश्रौ १७, २१, ८; ११;

वौश्रौ ६, ८: ६; १६, ९: ४; ११;

१४; आशि १२, ६, २६; १३, ५,

१४; आशि २, ५; ३, १;

५, २; ९, १९; पततः अप ६७,

३, २; पतन्ति वौश्रौ २, १०:

३४; ३६; सु ७, ४; वीश्रु; पतसि

वौश्रौ २, १८: १८; हिश्रु १, १७,

२; पतामि सु १९, ३; पताति

कौश्रु १५, ३; पतात् अप्रा ४,

६३; पतन्तु कौश्रु १०७, २; ११;

११; आपश्रौ १३, ५, ८; वौश्रौ;

पताम या १, ११; ११; ११; ११;

आपश्रौ ५, २, ४; सु २६, ४;

अप; पतेत् काश्रौ ६, १, १७;

आपश्रौ २, ११, २५××; वैश्रौ.

पपात् अप्राय २, ६; वृदे ३, २३;

७, ८८; पतिष्यामि सु ११, ३;

पसत् आपश्रौ २, २, ११; ११; ११;

माश्रौ २, १, ११; वैताश्रौ २, ४;

११; आपश्रौ १२, १५, ११;

अप ४८, २१; विघ २, २१;

११; आपश्रौ ५, २०, ६;

शांश्रौ ३, २, ४.

पतयति विघ २, १४; पतयतः

शांश्रौ ४, २, ११; ११; ११;

आपश्रौ २, १५, २; आपश्रौ १७,

१८, १; आपमं २, २२, १२,

आशि ३, ८, २: १६; वीपि

१, १५: २६; हिश्रु १, १६, ५.

पातयति आपश्रौ ७, २, ७;

वाश्रौ २, २, ४, ३; या ५, १९;

पातयन्ति वाघ १६, ३७;

पांतयामि आशि १, ५, ३: ५;

पातयामसि आशि २, ३, ५:

१३; पातयेत् कप्र १, ३, ५;

अप २३, ४, २; विघ ११, ९;

७२, २०.

पात्यते ऋअ १, १, १.

पत्- पा, पाग ३, १, १३४.

पतिष्ठ- छः माश्रु २, १७, ११.

पतत्- ततः सु ८, १; १९, ४;

२२, ५; आपध; -तताम् सु

१९, १; ३; अप ५८, ३, ११;

-तति काश्रौ २५, ११, ३३;

-तन्तः आपध १, १६, १२;

हिघ १, ५, ११; -तन्तम् आश्रौ

४, ७, ४; काश्रौ ६, १, १६; माश्रौ.

पतन्ती- न्ती अप ५८, २, ३;

३, ३; या १२, ३६; -न्त्यः अप

५८, ४, १६.

पतत्र<sup>i</sup>- पाठ ३, १०५.

a) वैप १ द्र. । b) व्यप. । व्यु. ? <पण- इति (पासि ६, ४, १६५) । c) तु. पागम. ।

d) <पाणित- इति पासि. अप. च । e) = बुदि- । व्यु. ? <√पण् इति पाठ. । f) व्यप. । व्यु. ? ।

g) या २, २८; ५, २ शौच २, ७७ या ६, ४, ९९; ७, ४, १९; ५४; ८४ पावा ७, २, ४९ परानृश्रुः द्र. । h) पामे. वैप १,

१८८६ इ. । i) पामे. वैप १, ११६९ इ. । j) लघुशालीयः पाठः । k) सपा. तैप्रा २, ४, २, ४ पादयामसि

इति पामे. ।



पतत्रिन्<sup>a</sup>- पाग ५, २; ६१<sup>b</sup>;  
-त्रि या ५, ३१; -त्रिणाः अप्राय  
५, ६; अय १३, १, ७; अप्रा ३,  
४, ११; -त्रिणा विघ ५१, १७;  
-त्रिणौ कौसू ६८, २६१<sup>c</sup>;  
-त्रिषु कौसू ११५, २१; -त्री<sup>d</sup>  
वौश्रौ १८, १७ : २१; वाश्रौ  
३, १, २, १; आपमं २, २१, १७;  
पाग ३, १४, ६०; माग १, १३,  
४; वाग १५, १.

पतत्रिणी- णी काग  
२६, २१<sup>d</sup>.

पातत्रिण- पा. ५, २, ६१.

पतत्रि-राज- -जम् सु ३१, १.

पतत्रि- (> पातत्र- पा.) पाळ ४,  
६९; पाग ५, २, ६१<sup>b</sup>.

पतन- पा ३, २, १५०.

पतन- नम् अप ५८<sup>e</sup>, ४, १;  
१८××; विघ; -ने अप ५८<sup>e</sup>,  
४, १; ६८, २, ३७; ३८; काघ  
२७६ : २.

पतन-खण्डा(ण्ड-आ) दि- -त्रीन्  
वौश्रौ २०, २९ : ६.

पतन-फालन-खण्डनो (न-उ)-  
द्वर्तन-संसर्पण- -णेपु वौश्रौ २७,  
४ : १३.

पतन-फालन-खण्डनो (न-उ)-  
द्वर्तन-संसर्पण-त्रिपरीतव्यवाय-  
करण- -णेपु वौश्रौ २७, ३ : १४.

पतन-भेद- -दाभ्याम् शैशि १६,  
५; पाशि २८; माशि ४, ७;  
याशि २, ७९; नाशि २, ८, ३०.

पतना(न-अ)न्त<sup>f</sup>- -न्ताः कप्र ३,  
३, ८.

पतनीय<sup>g</sup>- -यात् वौध ४, ५,  
२४; -यानाम् आपघ १, २८,  
१४; वौध २, १, ५१; -यानि  
शंघ ३७८; आपघ; -ये विघ  
१५, ३६; -येन हिश्रौ २२, २,  
१९; वाघ २३, ३९; -येभ्यः  
आपघ १, २, १९; हिघ १, १,  
५२; -येषु हिघ १, ७, ४९;  
-यौ आपघ १, २९, १६; हिघ  
१, ७, ७३.

पतनीय-वृत्ति- -त्तिः आपघ  
१, २९, १७; हिघ १, ७, ७४.

पतनीय-सेवा- -वायाम्  
गौध २१, १२.

पतनीया(य-आ) जेप- -पे  
विघ ५, २९.

पतनु- पाञ्जमो २, १, ७९.

पतन्त<sup>h</sup>- > -न्त-क<sup>i</sup>- -कः वौश्रौ  
२६, ३ : १८<sup>j</sup>; लाश्रौ ९, ११, ६;  
-कस्य निसू ८, ८ : १.

पातन्तक<sup>k</sup>- -के निसू ८, ८ :  
१०.

पतयत्- -यन्तम् आपमं २, १३,  
७; माग २, १८, २.

पतयालु- पा ३, २, १५८.

पतयालु- -पावा ४, १, ७१.

पतस- पाळ ३, ११७.

पतापत- पावा ६, १, १२; -तानि  
कौसू १२८, १; -तेषु कौसू ९३,  
३५.

पतित, ता- -त वाघ २०, ३०;

-तः -वौश्रौ २८, १३ : २१;  
माश्रौ २, ४, ६, २६१; वाधुश्रौ  
४, ८६; १२१; वैताश्रौ १६, १७;  
वौग; -तम् काश्रौ २५, १२,  
८; वौश्रौ २४, ३३ : १४; कौसू;  
-तस्य काश्रौ २५, ८, १५; शंघ  
४३४; आपघ; -ता कौसू १२६,  
७; कप्र ३, ४, ८; -ताः वौश्रौ  
२, १० : ३२१; सु १३, ४; वौध;  
-तानाम् वैग ३, ७ : २१; वाघ  
१५, १७; -ताम् वाध २०, १६;  
वौध २, १, ४४; २, ४३; -ताय  
आमिग २, ६, ७ : ६; -तायाम्  
आपघ १, २८, ९; हिघ १,  
७, ४५; -ते वैग ५, १ : २२;  
६, १४ : ४; कप्र २, ७, ९; अप;  
-तेन वाघ १, २२; १३, ५१;  
वौध २, १, ६२; विघ ३५, ३;  
-तेभ्यः कौसू ४६, ७; -तैः  
आपघ १, २१, ५; वौध २, २,  
४२; ३, ४२; हिघ १, ६, ३५.  
पतित-क्लीवा (य-अ)चिकित्स्य-  
रोगधिकल- -लाः विघ १५, ३२.  
पतित-चण्डाल-सूतिको (का-उ)  
दक्या-शव-स्पृष्टि-तत्स्पृष्ट्यु-  
(ष्टि-उ)पस्पृष्टान- -ने गौध  
१४, २९.  
पतित-चाण्डाला(ल-आ)राव-  
श्रवण- -णे वाघ २३, ३४.  
पतित-तज्जात-वर्जम् वौध २,  
२, ४१.

a) वैप १ द्र. । b) पतत्रि- इति पाका. । c) पाभे. वैप १, १००० d) द्र. । d) पाभे. वैप १,

१००० f) द्र. । e) ञ्त्रि ( वैतु. BC. ञ्त्रिः) इति पाठः इ यनि. शोधः । f) विप. । वस. ।

g) = पाप-कर्मन्- । पाप्र. (३, ३, ११३) करणे अनोयर् प्र. । h) झञ् प्र. उंसं. ( पाळ ३, १२८ ) ।

i) = अथ-भेद- । स्वार्थे कः प्र. । j) = राजस्य-भेद- । k) स्वार्थे अण् प्र. । l) पातीतः

इति पाठः इ यनि. शोधः ( तु. सपा. ऋ १०, १७, १३ स्कन्तुः इति; तै. ३, १, १०, १ पतितः

इति च) ।

पतित-स्व- -स्वान् नाशि १,४,४.  
 पतित-इन्त<sup>३</sup>- -न्तम् अप ३७,  
 ८,१.  
 पतित-ध्वज-वत्- -वान् अप  
 ६८,४,३.  
 पतित-प्रवृत्ति- -त्तिः बौध २,  
 १,४५.  
 पतित-वृत्ति<sup>३</sup>- -त्तिः गौध ४,२७.  
 पतित-संयोग- -गः बाध १,  
 २०.  
 पतित-संव्यवहारिन्- -री शंघ  
 ३९०; ४१४.  
 पतित-संसर्ग<sup>३</sup>- -र्गान् विध  
 ८२,२३.  
 पतित-संस्पृष्ट- -ष्टः शंघ ३९०.  
 पतित-संप्रयोग- -ने बाध २०,  
 ४५.  
 पतित-संभाषण- -णे वौग ४,  
 ११,१.  
 पतित-सावित्री-क<sup>३</sup>- -कः बाध  
 ११,७६; -काः आगृ १,१९,८;  
 शां २,१,९; पागृ; -काणाम्  
 पागृ २,५,४२.  
 पतित-सावित्र्यु(त्रि-उ)पनय<sup>३</sup>-  
 -ये बाध २७४:४.  
 पतिता(त-अ)न्यज-मूर्खा(ख-अ)  
 धार्मिक-वैरिन्- -रिभिः वैध  
 ३,३,४.  
 पतिता(त-अ)न्यजात- -तान्  
 वैध ३,१,१३.  
 पतिता(त-अ)न्न- -न्नस्य कप्र २,  
 ९,२१.  
 पतिवान्न-वर्जिन्- -र्जिं बाध  
 ८,१७.  
 पतिता(त-अ)धंशरीर- -रस्य

बाध २१,१५.  
 पतितो(त-उ)त्तर- -रम् वैश्री  
 १,१:१२.  
 पतितो(त-उ)न्मत्त-षण्डक- -कैः  
 अप २२,१२,४.  
 पतितुम् बौध ५:१३.  
 पतित्वा बाधुश्री ३, २८:२; अप्रा  
 ३,४,११.  
 पत्त्र,त्र<sup>३</sup>- पा ३, २, १८२; पाग  
 २,४,३१<sup>३</sup>; ५, १, ४; २, ९७;  
 -त्रम् सु २८, १; विध १८,  
 ४४; -त्राणाम् अप ६५, ३, ८;  
 -त्राणि वैगृ ५, १२:६; १०;  
 अप ३५,१,१४; बौध ११:६;  
 १२:४; -त्रात् पावा ४, ३,  
 १२०; -त्रे आग्निगृ २, ४, ११:  
 १०; पा ३,१, १२१; -त्रेण वैगृ  
 ५, १०:१; -त्रैः विध ७,  
 १२; वैध २,५,५; हिघ<sup>३</sup> २, ५,  
 १३२; १५७.  
 पत्र-क- पा ५,४,३.  
 पत्र-तस्रः(ः)माश्री ५,१,९,१८.  
 पत्र-नाडी- -डीपु बौश्री १०,  
 ४७:३; १९, २:१५; वैश्री  
 १९,६:२६.  
 पत्र-पुट- -टेषु गौपि २,३,२२.  
 पत्र-पुष्प-यु(त>)ता- -ताः  
 अप २६, २, ३.  
 पत्र-पूर्व<sup>३</sup>- -र्वात् पा ४,३,१२२.  
 पत्र-फल- -लानाम् सुध ३३.  
 पत्र-भङ्ग- -ङ्गेन अप १,४३,१.  
 पत्र-मूल- (>लक-पा.) पाग  
 ५,४,३.  
 पत्र-ल- पा ५,२,९७.  
 पत्र-शाक- -कम् विध ४४,३२.

पत्रा(त्र-अ)ङ्कुर-लता-  
 -तानाम् अप ६४,८,१०.  
 पत्राद्यवयव- -वः अप ३५,  
 १,५.  
 पत्रा(त्र-अ)ध्वर्यु-परिषद्- -षदः  
 पा ४,३,१२३.  
 पत्रीय- , पत्र्य- पा ५,१,४.  
 पत्मन्<sup>३</sup>- -पत्मन् बौश्री ८,१४:४१;  
 वाश्री ३,२,५,४; ऋप्रा ४,९८.  
 पस्मिन्- -स्मी सु १३,२.  
 प<sup>३</sup>पत्त्वन्<sup>३</sup>- -त्व<sup>३</sup> बौश्री १५, ७:  
 १५; आपमं २,२१,३०.  
 प<sup>३</sup>पत्त्वन्<sup>३</sup>- -त्वने आपश्री १३,  
 १२,४; १६,२९,२<sup>३</sup>; बौश्री ८,  
 १२:१८; वैश्री १६, १३:  
 १९; हिश्री ९, ३, ५०; -त्वा  
 शांश्री ६, ८, १०-१२; बौश्री  
 १०,४:१७; माश्री ६, १, १,  
 ३७; वैश्री १८,१:५१.  
 पत्त्व(र>)री<sup>३</sup>- -री कौसू १०७,  
 २<sup>३</sup>१.  
 पपात- पाग ३,१,१४०.  
 रपात- -तः अप ७०<sup>३</sup>,११, १९;  
 -तम् अप ७०<sup>३</sup>, ९, ५; ११,  
 ३२; -ते अप ७०, ७, २; -तैः  
 अप ७०<sup>३</sup>,११,२६.  
 पातक-पाग २,४,३१<sup>३</sup>; -कम् शंघ  
 ३९२; बौध ४,१, १४; -कात्  
 आग्निगृ २, ४, ५:२२; बौगृ;  
 -कानि बाध २८, ७; -कै या  
 ६, २७; -केभ्यः बाध २५, ३;  
 शंघ; -केषु शंघ २६१; बौध  
 ४,१,११; -कैः बाध २७,१८.  
 पातक-पतनीय-वर्ज- -र्जेषु बौध  
 ४,१,९.

a) विप. । यस्. ।      b) यस्. > पत्. ।      c) = पक्ष-, पण्ड-, वाहन- ।      d) तु. पागम. ।  
 e) स्या. आपध २,२२-२३,२ पर्णः इति पाभे. ।      f) वैप १ द. ।      g) पाभे. वैप १, १८८९ p द. ।  
 h) पाभे. वैप १, १८८९ i द. ।

पातक-पतनीयो(य-उ)पपातक-  
वर्ज- जैषु वौध ४, १, ८.  
पातक-वर्ज- जैषु वौध ४, १, १०  
पातक-वर्जम् वौध २, १, ५७.  
पातक-संयोजक- -काः गौघ  
२१, २.  
पातक-सम- -मानि गौघ २१,  
१०.  
पातका(क-अ)भिशंसन- -ने  
वौध २, १, ६०.  
पातकिन्- -किनः विध ४३, ४५  
पातको(क-उ)पपातक-संयुक्त-  
-क्तः वौधौ २८, १ : ३१.  
पातको(क-उ)पम- -मैः वौध  
४, २, १४.  
१पातन<sup>a</sup>- (>पातनी- पा.) पाग  
४, १, ४१.  
२पातन- -नम् वाध २८, ७;  
-नात् शंघ १०१.  
३पातम् पा ३, ४, ५६.  
पातयद्- -यताम् वाध १५, १८;  
-यन् अप ७०<sup>३</sup>, ३, ३.  
पातित- -तः वौध १, ५, ५९; -तम्  
वाध ३, ४५; -ते अप २३, ४, १.  
पातुक- पा ३, २, १५४.  
पापति- -पावा ३, २, १७१.  
पापत्यमान- -तः या ५, २.  
पत- ✓पत् द्र.  
पतङ्ग<sup>b</sup>- पाउ १, ११९; -ङ्गः आश्रौ  
३, ८, ११; वौधौ २६, ११;  
२२१; शंघ ३७७ : ६; ३७८;  
ऋअ २, १०, १७७<sup>०</sup>; वृदे ८,

७५<sup>०</sup>; अप्रा ३, ४, ११<sup>d</sup>; -ङ्गम्  
आश्रौ ४, ६, ३१; शांश्रौ ५, ९,  
१४<sup>१</sup>; ११, १४, १७; ऋअ २,  
१०, १७७<sup>१</sup>; वृदे ८, ७५<sup>१</sup>;  
-ङ्गाः निघ १, १४<sup>१</sup>; -ङ्गात्  
शांश्रौ ११, १४, २८; -ङ्गान्  
शुप्रा ३, १५०; तैप्रा २, २३;  
-ङ्गाय सु ८, ३; अप १४, १,  
७; १७, १, ८.  
पतङ्ग-दंश-मशक- -काः अप ५२,  
१, ७.  
पतञ्जल<sup>c</sup>- पाग २, ४, ६९; -लानाम्<sup>f</sup>  
वौधौ २६ : १.  
पतञ्जलि<sup>e</sup>- पावाग ६, १, ९३; -लिः  
हिधौ २१; ३, १०.  
पतत्- , -त्र- , -त्रि- , -त्रिन्- प्रभृ.  
✓पत् द्र.  
पताका<sup>h</sup>- पाउना ४, १५; पावाग  
५, २, ११६; -काः अप १, ३१,  
४; २१, ६, ३; ४.  
पताका-तोरण- -जैः अप १२,  
४, ५; १९<sup>३</sup>, १, ५.  
पताकिक- , पताकिन्- पा ५, २,  
११६.  
पतापत- ✓पत् द्र.  
पति<sup>d</sup>- पाउ ४, ५७; -तयः वौधौ  
३, २२ : १२; १४, ९ : ४०;  
माश्रौ; या ३, २; १०, १६<sup>१</sup>;  
४३; -तयः आश्रौ १, ४, ९;  
३, १, १४<sup>१</sup>; शांश्रौ; काश्रौ २,  
८, १५<sup>१</sup>; आपश्रौ १४, २५,  
११<sup>१</sup>; ३४, ५; वैताश्रौ १८, ५<sup>१</sup>;

-ततिः आश्रौ ४, ७, ४४<sup>४</sup>;  
शांश्रौ; आपश्रौ १६, ३३,  
४<sup>४</sup>; वैताश्रौ ३१, ४<sup>१</sup>; कौसू २१,  
७<sup>१</sup>; वृदे ३, ७१<sup>३</sup>; या ४, २५;  
५, ४; ७, १०; १०, १२<sup>१</sup>; १३;  
२१<sup>१</sup>; २३; ११, ३८; पा १,  
४, ८; -ततिना आश्रौ १, ७, २<sup>२</sup>;  
९, ११, १४; शांश्रौ; या १०,  
१५; -तिभिः वाध १२, २४<sup>१</sup>;  
२१, १४; -ततिभ्यः काश्रौ १०,  
४, ११; आपश्रौ १३, १०, १<sup>२</sup>;  
वौधौ; आपमं १, १, ४<sup>१</sup>; वौघ  
१, १, २५<sup>१</sup>; जैघ १, २१ : ८<sup>१</sup>;  
या ८, १०; -ततिम् आश्रौ ७,  
६, ४; ८, १०, ३; शांश्रौ;  
शांघ ३, ११, १४<sup>०</sup>; पाग ३,  
९, ६<sup>०</sup>; काग ५२, ५<sup>०</sup>; विघ  
८६, १६<sup>०</sup>; या ३, ५<sup>१</sup>; ४,  
२०; १२, २१; १११, १०;  
३४; -तति आश्रौ ५, ५, १२;  
शांश्रौ; -तंती आश्रौ ६, १२,  
१२<sup>१</sup>; शांश्रौ ८, १०, १<sup>१</sup>; आपश्रौ  
१३, १८, २<sup>१</sup>; १९, २, १९; वौधौ  
७, १२ : २९; ४२; हिधौ ८,  
१८, ६<sup>१</sup>; ९, ४, ५८<sup>१</sup>; आपमं १,  
६, १२; ७, ११; काग २६, १२;  
वौघ ४, २, १४; -तीन् वाधुश्रौ ३,  
९२; ४; ऋप्रा ४, ७३<sup>१</sup>; -तीनाम्  
आपमं १, ६, ७<sup>१</sup>; काग २५,  
४७<sup>१</sup>; वृदे १, ७५; -तंते  
आश्रौ ६, २, ६; ९, ११, १५;  
शांश्रौ; आपश्रौ १०, २९,

a) कर्तरि ल्युः प्र. । b) वैप १ द्र. । c) = ऋषि-विशेष- । d) पाभे. वैप १, १८८९ ष द्र. ।  
e) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । °ञ्जलि- इति भोजः (तु पागम.) । f) बहु. <पातञ्जल- । g) व्यप. । व्यु. ? ।  
पुतत्- + अ° इति पासिवा. । h) = केतु- । व्यु. ? । i) पाभे. वैप १, १८९० d द्र. । j) पाभे. वैप १, १५७६ i द्र. ।  
k) पाभे. वैप १, १७६६ j द्र. । l) पाभे. वैप १, १८९१ k द्र. । m) = प्रजापति- । n) पाभे. वैप १, १९७४ f द्र. ।  
o) पाभे. वैप १, १९३४ p द्र. । p) धर्मणस्पती इत्यस्य स्थानि सपा.; माश्रौ २, ५, ४, १३ वैताश्रौ २, ३, १५;  
धर्मणस्पति इति पाभे., पाग २, ११, १२ विशिष्टश्च पाभे. च । पु १३५८ सरथ. धर्मणः > धर्मणः (सं.) इति शोघः ।

१<sup>३</sup>; १३, १८, २<sup>०</sup>; वौश्रौ ६, १६ :  
 ५<sup>३</sup>; ८, १८ : ६<sup>०</sup>; माश्रौ १०,  
 २०, १<sup>३</sup>; वैश्रौ १२, २० :  
 ९<sup>०</sup>; हिश्रौ ७, ३, १८<sup>३</sup>; ९, ४,  
 ५८<sup>०</sup>; या १०, १६; -फँते:  
 शाश्रौ ६, ९, १७<sup>०</sup>; आपश्रौ  
 ८, १८, ३<sup>०</sup>; वौश्रौ ५, १६ : २४<sup>०</sup>;  
 भाश्रौ ८, २१, १०<sup>०</sup>; हिश्रौ ५,  
 ५, १८<sup>०</sup>; -तौ श्रुप्रा ३, ३९<sup>०</sup>;  
 शौच २, ७०; -फँत्या काश्रौ ३,  
 ८, २<sup>१</sup>; आपश्रौ ३, ९, १०; वौश्रौ  
 १, २० : ३०<sup>०</sup>××; भाश्रौ; माश्रौ  
 १, ३, ५, १७<sup>०</sup>; आपमं १, ५, १६<sup>१</sup>;  
 १७<sup>१</sup>; माश्रु १, ११, २०<sup>१</sup>; या ३,  
 २१; -फँत्युः वौश्रौ १, १२ :  
 ३३<sup>१</sup>; भाश्रौ २, ५, ११<sup>१</sup>; माश्रौ  
 १, ७, ७, ७; हिश्रौ १, ७, २४<sup>१</sup>;  
 आपमं १, ६, ५; १६, ३<sup>१</sup>; आमिश्रु;  
 -फँत्ये आपमं १, ६, ४<sup>१</sup>; काश्रु  
 २६, ४<sup>१</sup>; माश्रु १, १३, ६<sup>१</sup>; १५;  
 वाध १७, ५६९; या १, १९; ३, ५;  
 १२, ८<sup>१</sup>; -त्यौ कौसू ६२, १२;  
 वाध; पा ६, २, १८.  
 पति, ली<sup>१</sup> - पा ४, १, ३३; -त्यः  
 आपश्रौ १४, १३, १०; २०, १५,  
 ७; १६, १९××; वौश्रौ; -फँलि  
 आश्रौ ४, १२, २; काश्रौ;  
 -फँलिस-लि आपश्रौ २, ५, ७;  
 भाश्रौ २, ५, ८; माश्रौ १, २, ५,  
 १०; हिश्रौ १, ७, २०; -लिभिः  
 आपश्रौ १४, १५, २<sup>१</sup>; -लियै

आपश्रौ १०, २३, ४; ११, २१,  
 ८<sup>१</sup>; हिश्रौ ७, २, २९××; -ली  
 आश्रौ १, १०, ८<sup>१</sup>××; शाश्रौ;  
 वैताश्रौ १५, ३<sup>१</sup>फँ<sup>१</sup>; या ९,  
 २९; ३३; ११, ३७; ४९; १२,  
 ७; ८; ४६<sup>१</sup>; -फँलीः आश्रौ १,  
 १०, ४; ५; ५, ५, १८<sup>१</sup>××; शाश्रौ;  
 हिश्रौ : १५, ४, १०<sup>१</sup>; या १२,  
 ४५<sup>१</sup>फँ<sup>१</sup>; -फँलीः आपश्रौ २, ५,  
 ७; वौश्रौ; -लीनाम् शाश्रौ  
 ८, ७, १३; १४, ५७, ९; आपश्रौ;  
 माश्रौ १, ४, ३, १<sup>१</sup>फँ<sup>१</sup>; वाश्रौ १,  
 १, ४, ९<sup>१</sup>फँ<sup>१</sup>; हिश्रौ ६, ४, १<sup>१</sup>फँ<sup>१</sup>;  
 -लीभिः हिश्रौ १०, ७, ४××;  
 आमिश्रु; -लीभ्यः आश्रौ १२,  
 ९, १०; काश्रौ ६, ९, १५;  
 आपश्रौ; -लीम् आश्रौ २, १,  
 २९<sup>१</sup>; ७, १३××; शाश्रौ;  
 आपश्रौ १८, १७, १०; वाश्रौ १, ३,  
 ७, ७<sup>१</sup>; हिश्रौ १३, ६, १०<sup>१</sup>०;  
 आमिश्रु १, ५, ३ : ९<sup>१</sup>; -त्यः  
 आश्रौ १०, ८, ८; शाश्रौ; या  
 १२, ४४; ४५; -त्यः फँकौसू  
 ८८, १२; १९; -त्या आश्रौ ३,  
 १२, ९; शाश्रौ; -त्याः शाश्रौ १,  
 १५, १०××; काश्रौ; कौसू ६,  
 १७<sup>१</sup>१; -त्याम् काश्रौ ७, ५, ११;  
 आपश्रौ; -त्यै आश्रौ १, ११,  
 १; काश्रौ ७, ६, २२; आपश्रौ;  
 -त्योः आमिश्रु २, ७, ३ : ८;  
 -त्यौ हिश्रौ १४, ४, ३८<sup>१</sup>फँ.

पत्नी-पुत्र-शिष्य- -प्याणाम्  
 वैश्रु २, ८ : १०.

पत्नी-मन्त्र- -त्राः वैताश्रौ  
 ४, २३; -त्रैः वैताश्रौ ४, २३<sup>१</sup>फँ.

पत्नी-यजमान- -नौ शाश्रौ ४,  
 १, १; काठश्रौ.

पत्नी-यजुष्- -जूवि वौश्रौ  
 १४, २२ : १.

पत्नी-यूपो( प-उ )च्छ्रयण-  
 -णम् काश्रौ ८, ८, ३७.

पत्नी-योक्त्र- -क्त्रम् वाश्रौ  
 १, २, ४, ४.

पत्नी-लोक- -कम् माश्रौ १,  
 २, ५, १०; २, १, १, ४५; वाश्रौ  
 १, ३, २, १९; -के भाश्रौ ६,  
 ९, ५.

पत्नीलोक(क-उ)प-  
 स्थान- -नम् माश्रौ १, २, ५,  
 १०<sup>१</sup>फँ.

पत्नी-वत् मीसू ९, ४, ९.

पत्नी-वत्- पाग ५, २, ६१;  
 -वत् आपश्रौ ६, ५, १; -वतः

वौश्रौ २५, २३ : १०; -वता  
 वौश्रौ २५, २३ : १३; -फँवन्<sup>१</sup>

काश्रौ १०, ६, १९; शुभ्र १,  
 ५००; श्रुप्रा २, २०; -फँवन्तः

शाश्रौ १८, ७, १४; अप ३२,  
 १, १९<sup>१</sup>; या ५, १८; -फँवन्तम्

वौश्रौ<sup>१</sup> ८, १४ : १८; २६, ३१ :  
 १२; अशां २४, ६; -वाश्रु<sup>१</sup>

आपश्रौ १३, १४, ८; वौश्रौ ८,

- a) पाभे. वैप १, १८९३ a द्र. । b) पाभे. पृ १३५७ h द्र. । c) पाभे. वैप १, १८९० d द्र. । d) सपा.  
 मा ३, ६० का ३, ८, ५ माश्रु २, ६, २, १४ अमुतः इति पाभे. । e) वैप १, १८९३ j द्र. । f) पाभे. वैप १, १८९३ l द्र. ।  
 g) पाभे. वैप १, १८९३ p द्र. । h) पाभे. वैप १, १८९१० द्र. । i) वैप १ द्र. । j) पाभे. वैप २, ३३ ल गोत्रा  
 २, २, १<sup>१</sup> टि. द्र. । k) पाभे. वैप १, १६०० l द्र. । l) ली इति पाठः? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ ९, १४, ३) ।  
 m) पाभे. वैप १, १८९४ n द्र. । n) सपा. ल्नीमन्वारभ्य <> ल्न्यन्वारभ्यम् इति पाभे. । o) ल्नी इति पाठः?  
 यनि. शोधः (तु. आपश्रौ १८, १७, १०) । p) सपा. हिश्रु १, २०, १ विदिष्टः पाभे. । q) ल्न्याञ् इति पाठे ल्न्याः  
 अञ् इति संघिः द्र. (तु. संस्कृतः टि.) । r) पाभे. वैप १, १८९४ f द्र. । s) पाभे. वैप १, १८९५ f द्र. ।

१४:१९; २६, ३१:१३;  
वैश्रौ १६, १७:९; हिश्रौ ९,  
४, २०; -०वान् माश्रौ २, ५,  
२, १२<sup>१०</sup>।

पत्नीवत<sup>८</sup>- पा ५, २,  
६१; -तः आश्रौ ५, ५, २१<sup>१</sup>;  
वौश्रौ १७, १६:११; २५,  
२०:२०; २६, २४:१५;  
वैताश्रौ २०, ४; -त्तम् शाश्रौ  
७, ३, ४; काश्रौ; -तस्य आश्रौ  
५, १९, ७; शाश्रौ; -ते आपश्रौ  
२०, २२, १४<sup>६</sup>; वौश्रौ २५, २३:  
१०; हिश्रौ १४, ५, १०; मीसू;  
-तेन वौश्रौ १७, १५:१; माश्रौ  
५, २, १२, ३४.

पत्नीवत-त्रयोदश<sup>८</sup>-  
-शान् वौश्रौ १७, ११:२.

पत्नी-वर्जम् आपश्रौ ८, १४,  
१; १०, २१, ५; १७, १६, ६;  
वैश्रौ १९, ६:९९.

पत्नी-विनाशि(रु>)नी-  
नी अप २२, ३, ३.

पत्नी-शाल, ल<sup>१</sup>- लम्  
आश्रौ १२, ६, ६; शाश्रौ १७,  
६, ४; काश्रौ; -ला वैश्रौ १२,  
४:११; लाश्रौ ८, १, २२;  
१०, १५, ९; -लान् वौश्रौ ८,  
१९:२; -लाम् आश्रौ ४, १०,  
१; द्राश्रौ १, २, २९××; लाश्रौ;  
-लायाः -द्राश्रौ ७, ३, १६;  
लाश्रौ ३, ३, १८; -लायाम्  
काठश्रौ-१५२; वौश्रौ २९, ११:  
२४; जैश्रौ ७:११; द्राश्रौ ७,

३, ९; लाश्रौ ३, ३, ११; -ले  
शाश्रौ ९, २७, ४; काठश्रौ.

पत्नीशाल<sup>६</sup>- -लान्  
द्राश्रौ ४, ४, ३; लाश्रौ २, ३, १८.  
पत्नी-शिरस्- -रः काश्रौ २६,  
४, १४.

पत्नी(ली-इ)ष्टका<sup>१</sup>- -का:  
वौश्रौ १९, ७:४७; -के वौश्रौ  
१९, ७:८; १७; २८; ३७.

पत्नी-संयाज<sup>१</sup>- -जस्य वौश्रौ  
१५, ३५:१२; -जाः आश्रौ  
१, १०, ५; शाश्रौ; -जान् आश्रौ  
१, ५, ३१; -शाश्रौ; -जानाम्  
आपश्रौ ५, २८; १३; वौश्रौ;  
-जेभ्यः आश्रौ ८, १२, २७;  
शाश्रौ १०, १३, २६; काश्रौ;  
-जेषु वौश्रौ २०, १४:२७××;  
वाश्रौ; -जैः आश्रौ ६, १३, १;  
शाश्रौ १, १५, १; जैश्रौ २१:  
१३; -जौ भाश्रौ ४, १९, ५.

पत्नीसंयाज-कर्मा (म-  
अ) न्त- -न्ते जैश्रौका २०५.

पत्नीसंयाज-प्रभृति<sup>१</sup>-  
-ति माश्रौ २, ५, ४, १५; वाश्रौ  
१, ७, २, १५.

पत्नीसंयाजा(ज-अ)न्त,  
न्ता- -न्तः आपश्रौ ११, २०,  
१६; वौश्रौ ६, ३२:१३××;  
माश्रौ; -न्तम् शाश्रौ ५, २०, ८;  
आपश्रौ; -न्ता शाश्रौ ५, ३, ९;  
आपश्रौ; -न्ताः वैताश्रौ १५,  
१९<sup>१६</sup>; -न्तानि आश्रौ ७, १, ५;  
काश्रौ १२, ३, २३; वाश्रौ ३,

२, १, ३७; -न्ते काश्रौ २०, ८,  
१०; आपश्रौ १४, २१, १२;  
वाश्रौ ३, ४, २, २.

पत्नीसंयाजान्त-न्ता-  
-ता शाश्रौ १०, १, १५.

पत्नीसंयाजान्त-त्व-  
-त्वम् मीसू ९, १, २९.

पत्नीसांयाजिक<sup>१</sup>- -के  
आश्रौ १, ४, ५.

पत्नी-संयाजन- -नम् काश्रौ  
६, ९, १४.

पत्नी-संयोजक- -काः वौश्रौ  
२०, १०:२०.

पत्नी-संचार- -रान् वैश्रौ  
१३, ७:३.

पत्नी-संनहन- -नम् काश्रौ  
८, १, ५; आपश्रौ; -नात् वैश्रौ  
९, ५:६; हिश्रौ ५, ३; १३××;  
-नानि वौषि ३, ४, १.

पत्नी-हीन- -नेन अप २३,  
१२, ५.

पत्नी-होम- -मम् वौश्रौ  
२४, २९:१४.

पत्न्य(ली-अ)गार- -रे भाश्रौ  
१०, १०:१.

पत्न्य(ली-अ)जलि- -लौ  
वौश्रौ ५, १७:३; ६, २४:  
२९; ३६; वैश्रौ २, ६:३; ९,  
११:१२.

पत्न्य(ली-अ)दर्शन- -नम्  
काश्रौ २६, २, ३.

पत्न्य(ली-अ)न्याज-प्रति-  
पेघ- -घः मीसू १०, ७, ३८.

a) अश्लुतिकः पाठः। b) पामे. वैप १, १८९४ f. द्र.। c) = ग्रह-, यूप-, [पत्नीशब्दवत-] अथ्याय-

वा अनुवाक- वा.। अण् प्र.। d) सस्य. त्रयोदशे सूत्रे त्वाण्टः इत्यनन्तरं पठितव्यम् (तु. हिश्रौ १४, ५, १०. C. च)।

e) विप.। वस.। f) उप. वैकल्पिकं नपुंसकत्वं द्र. (पा २, ४, २५)। g) तात्रभविकः अण् प्र.। h) मल्ले.

कसं.। i) वैप १ द्र.। j) विप.। वस. वा पंस. वा.। k) पाठः? -न्तः इति शोधः (तु. सोमादित्यः C. च)।

l) तस्येदमीये प्र. उप. वृद्धिः वसं. (पा ७, ३, १०)।

पत्य( ली-अ )न्यारब्ध-  
 -ब्धः काश्रौ ८, १, २.  
 पत्य( ली-अ )न्यारम्भम्<sup>३</sup>  
 माश्रौ १, ३, ५, ५.  
 पत्य( ली-अ )भाव- वे  
 आपश्रौ २, ६, ४; शंघ १८८.  
 पत्य( ली-अ )भिगामिन्-  
 -मि विघ १७, ४.  
 पत्य( ली-अ )वेक्षण- -णम्  
 चाश्र १ : १२.  
 पत्या( ली-आ )वतन- -ने  
 आपश्रौ ६, १२, ५.  
 पत्या( ली-आ )शिस- -शीः  
 शुभ्र १, २७२; ४, ८५.  
 पत्यो( ली-ओ )दन<sup>४</sup>- -नस्य  
 माश्र २, १ : १; हिण् २, ८, ७.  
 पति-का( म > )मा- -मा आपश्रौ  
 ८, १८, ३; वौश्रौ; -माः काश्रौ  
 ५, १०, १५; माश्र २, १४, १५;  
 -मायाः आपश्रौ ८, १८, ५९;  
 वैश्रौ ९, ११ : १२९; गो २, ३५;  
 -मायै<sup>५</sup> भाश्रौ ८, २२, ३;  
 माश्रौ १, ७, ७, ९; हिश्रौ ५;  
 ५, १८.  
 पति-कूल- -लम् अप १, ४५, ८;  
 -कैल माश्र १, १४, १०९; गोश्र  
 २, ३, ९; जैश्र १, २१ : ३४.  
 पति-( म > )ली- पा ३, २, ५२;  
 ५३; -ली आपमं १, १, ५; १०,  
 ३; ६; आश्र १, ५, ५; कौश्र.  
 पतिघ्न्य( शी-अ )न्त<sup>६</sup>- -न्तम् वैश्र  
 ३, ४ : ३.

पति-त्व- -त्वम् मीसू ९, ३, ३९.  
 पति-नामन्- -म गोश्र २, १, ९;  
 ३, ९; जैश्र १, २१ : ३४; ३६.  
 पति-पर- -रयोः शुभ्रा ३, ५१.  
 पति-पुत्र- -त्रौ विघ ६, ३२.  
 पतिपुत्र-कृत- -तम् विघ ६,  
 ३१.  
 पति-पुत्र-पृष्ठ-पार-पद-पयस-पोष-  
 -षेषु पा ८, ३, ५३.  
 पति-पुत्र-शील-संप( म > )ज्ञा-  
 -ज्ञाः गोश्र २, ४, ६.  
 पति-पूजन- -नात् शंघ ३३९.  
 पति-पोषण- -णम् काश्र २५, ३७१.  
 पति-प्रिया- -या अप १, ४४, ८.  
 पति-यान- -नः गोश्र २, १, १९;  
 जैश्र १, २० : १६.  
 पति-रेतस- -तः<sup>१</sup> शांश्र १, १९, ६;  
 आमिश्र १, ५, ५ : १४<sup>१</sup>.  
 पति-श्लोक- -कम् आपमं १, ४, ४६;  
 ११, ५; आमिश्र ३, ५, ६ : १३;  
 ७, ४ : १०; वौश्र १, ४, १७६;  
 वौशि १, ५ : १; २, ४, १; जैश्र  
 १, २१ : ११; २०६; वाघ २१,  
 ११९; -के आपमं १, ४, ९;  
 आमिश्र.  
 पति-व( त > )ली- -न्ती शाश्रौ १६,  
 १३, १३; आपमं १, १०, २<sup>१</sup>;  
 कौश्र १, १२, १; शांश्र १, १९,  
 १; वौश्र १, ६, २३.  
 पतिवली- पा ४, १, ३२.  
 पति-व्यस<sup>१</sup>- -व्यसः आपघ १, १४,  
 २१; हिण् १, ४, ५०.

पति-विमानिता- -ता कप्र ३, १,  
 १३.  
 पति-वेदन<sup>१</sup>- -नः अश्र २, ३६;  
 १४, २; -नम् आपश्रौ ८, १८,  
 ३६; वौश्रौ ५, १६ : २४<sup>१</sup>;  
 भाश्रौ ८, २१, १०<sup>१</sup>; वाश्रौ  
 १, ७, ४, ७२<sup>१</sup>; हिश्रौ ५, ५,  
 १८<sup>१</sup>; दाश्रौ १३, ३, ३६<sup>१</sup>;  
 काश्र २५, ३५<sup>१</sup>; कौश्र ७५, ७९;  
 -नानि कौश्र ३४, १२.  
 पति-व्रता<sup>१</sup>- -न्ता वैश्र ६, २ : ८;  
 कप्र ३, ६, ६; वृदे ४, ३;  
 आश्रौ १३, १०; -तानाम् वाघ  
 २१, १४; -ताम् आमिश्र २, ७,  
 ६ : १०; -तासु विघ ९९,  
 २१.  
 पति-शब्द- -ब्दे ऋषा ४, ४२; ४६-  
 पति-शुभ्रया- -पया कप्र २, १०,  
 १२; -षायाः शंघ ३३७.  
 पति-संयोग-काल- -ले आश्रौ १४,  
 ५.  
 पति-संवननी<sup>१</sup>- -नी वृदे ८,  
 ५७.  
 पति-स्थ- -स्थः हिपि ५ : ७<sup>१</sup>.  
 पति-स्थान-><sup>१</sup>नीय- -न्यः आश्र  
 ४, २, १८.  
 पति-हित- -तः<sup>१</sup> आमिश्र ३, ५, ६-  
 १५; वौशि १, ५ : २.  
 पत्य( ति-अ )न्त<sup>०</sup> पा ५, १, १२८.  
 पत्या( ति-आ )दि- -द्विषु पावा ८,  
 २, ६९<sup>०</sup>.  
 पत्यु( ति-उ )त्तरपद- -दात् पा ४,

a) पामे. पृ १४८० II द्र. 1 b) मलो. कत. 1 c) सप्र. °मायाः <> °मायै इति पामे. 1

d) उत्तरेण इयम् इति पदेनास्य संधिरार्षः । e) = मन्त्र-विशेष- । वस. । f) सपा. आपमं १, १२, ८ प्रथ. प्रतिरेतः इति पामे. । g) पामे. वैप १, १८९२ C द्र. 1 h) पति इति पाठः ? यनि. शोघः ( वृ. ऋ १०, ८५, २१ ) । i) विप. । वस. उप. = आश्रुत् । j) विप., व्यप. ( अश्र. ) । वैप १ द्र. 1 k) पामे. वैप १, १८९६ j द्र. 1 l) विप. > नाप. । वस. । m) = ऋग्-विशेष- । उप. <सं/वन् । n) सप्रा. पतिस्थः <> पतिहितः इति पामे. । o) वृ. पाम. पाति. ।

१,८५.

पतित-पतितुम् प्रसृ. √पत् द्र.

!पती<sup>०</sup> जैश्रीका ९०.

पतेर- पाड १, ५८.

पत्त-तस् (: ) √पद् द्र.

पत्तन<sup>०</sup> - पाड ३, १५०; पाग २, ४, ३१०; -ने नाशि २, २, १३.

पत्तस् (:), पत्ति- √पद् द्र.

पत्तूर- पाडभो २, ३, ५९.

!पत्त्य अत्राय ३, ८.

पत्तन्-पत्र- √पत् द्र.

पत्रिक-( > पात्रिक्य-पा.) पाग ५, १, १२८.

३, २पत्वन्-, पत्वरी- √पत् द्र.

पत्सङ्गिनी- √पद् द्र.

पत्सल- पाड ३, ७४.

पत्सु-तस् (: ) √पद् द्र.

√पथ्, न्य्<sup>०</sup> पाधा. भ्वा. पर. गतौ; चुर.

पर. प्रक्षेपे<sup>०</sup> गतौ च, पथति अप

४८, २०१; पयामि सु १२, ५;

१३, २; पथेयम् सु १५, ५.

पथ्यास्म कौसू ६८, २६१.

पथ्<sup>०</sup> - पथः आश्रौ ५, १, १५; ६,

२, ६; शाश्रौ ९, ६, ६; १२, १७,

११<sup>०</sup>; काश्रौ; आपश्रौ १३, २२,

५१<sup>०</sup>; वौश्रौ ४, ११: १९१<sup>०</sup>; ऋया

३, २; ६, २; ८, ६; १२, ४३१<sup>०</sup>;

ऋपथःऽपथः आश्रौ ३, ७, ८;

शाश्रौ; या १२, १८; ऋपथः

शाश्रौ ३, ५, ७; वौश्रौ १३, २: ११;

हिश्रौ २२, २, ७; आश्रु ३, ७, ८;

पथा ऋपथश्रौ ३, १९, ६; १०,

१, ६××; काठश्रौ; या ५, २१;

६, ७; १२, २१; २८<sup>०</sup>; १४, १९;

ऋपथाम् आश्रौ ३, ७, ८; शाश्रौ

६, १०, ४; वैताश्रौ; या २, २८;

पथि शाश्रौ ६, १३, २१<sup>०</sup>; वौश्रौ;

विध ५, १४७<sup>०</sup>; पथे तैप्रा ८,

२५१<sup>०</sup>.

ऋपथि-षद् - षदे पाग ३, १५,

७; हिग १, १६, ८<sup>०</sup>.

पथि-पदि<sup>०</sup> - द्वी शौच २,

१८०<sup>०</sup>.

पथि-स्थि(त >)ता- तासु विध

९९, २२<sup>०</sup>.

पथ्य, थ्या<sup>०</sup> - पा ४, ३, ५४; ४,

९२; -थ्यम् द्राश्रौ ३, २, १९;

लाश्रौ १, १०, १४; निसू १,

४ : १२; ७, ८ : १४; विध ६८,

४८; -थ्याय<sup>०</sup> लाश्रौ ६, २,

१७; १८; -थ्या आश्रौ ४, ३,

२१<sup>०</sup>; ६, १४, ३; शाश्रौ; वैग ३,

१५ : ८<sup>०</sup>; अत्राय १, ४१<sup>०</sup>;

अप ४८, १३९<sup>०</sup>; शुअ १,

४२८<sup>०</sup>; निघ ५, ५१<sup>०</sup>; या ११,

४५१<sup>०</sup>; -थ्याः लाश्रौ ६, २, २;

३०; वैताश्रौ १३, २; -थ्यान्

आश्रौ १२, ८, ४०; -थ्यानाम्

निसू ६, १ : ६१; -थ्यानि निसू

१, १: २८; -थ्याभिः लाश्रौ ६,

२, १४; -थ्याम् शाश्रौ ५, ५, १;

८, १२, ३; काश्रौ; -थ्यायाः

वैताश्रौ १३, २; २४, ८; -थ्या-

याम् निसू १, १० : १०; अप

१, ३४, ४; -थ्यायै शाश्रौ १६,

१०, ११; वौश्रौ ६, ११ : ११<sup>०</sup>;

वैताश्रौ ३७, २०; वाग १३, १;

-ऋथ्यासु आश्रौ ४, ३, २; शाश्रौ

५, ५, २; शांथ ६, ४, २; माग २,

१५, ६; -०थ्ये वीग २, २, ७.

पथ्य-न्ता- -ताम् निसू ४,

७ : १६.

पथ्य-प्रक्रम<sup>०</sup> - सम् निसू २,

८ : १८.

पथ्या-कृत- -तेषु माग २,

१५, ६<sup>०</sup>.

पथ्या(थ्या-आख्य >)ख्या<sup>०</sup> -

-ख्या निसू ४, ७ : १७.

पथ्या-पङ्क्ति- -ङ्क्तयः अत्र

१, ३; ११××; -ङ्क्ती अत्र ३,

२९××

पथ्यापङ्क्त्या(ङ्क्ति-आ)

दि- -दि अत्र ११, ३ (२).

पथ्या-पाद्- -द्ः नाशि २,

७, १.

पथ्यावृहती- -तीम् शुअ

१, १९६; ४३१××; -त्यौ अत्र

१०, ४; १९, १.

पथ्यावृहती-सतोवृहती-

-त्यौ शुअ ३, २३०.

पथ्या-लक्षण- -गम् नाशि

२, ७, २.

पथ्या-न् (त >) ती- -त्यै

वाधूश्रौ ४, ४४ : २१<sup>०</sup>.

पथ्या(थ्या-अ)वसान<sup>०</sup> - नम्

a) पृ २३० k द्र. । b) = नगर- । व्यु. ? । c) तु. पागम. । d) या २, २८ परामृष्टः द्र. ।

e) √पृथ् (यद्र.) इति पाभे. । f) पाभे. वैप १, १८८७ d द्र. । g) वैप १ द्र. । h) वैप १, १८९७ d द्र. ।

i) पाभे. वैप १, १८९७ c द्र. । j) पथि ग्रामे त्रिवारान्ते इत्यस्य स्थाने पथिग्रामसीमान्ते इति जीसं. । k) व्यु.

पाभे. च वैप १ द्र. । l) विलोलुपासु इति जीसं. । m) वप्रा. । विप., नाप. । पाप्र. < पथिन्. । n) = विष्टुति-

विशेष- । o) = हरीतकी- । p) पाभे. वैप १, १८९८ j द्र. । q) = देवता- । r) = ङ्ङ्दो-विशेष- । s) विप. ।

वस. । t) पाभे. वैप १, २०२७ m द्र. ।

निसू २, ८ : १८; ६, ६ : २०;  
८ : ३४; ८, ४ : १३.

पथ्या-स्थान- ने निसू १,  
१० : १२.

पथ्या-त्वस्ति-देवता->

व(त्य>)त्या- -त्या ऋअ २,  
१०, ६३.

१पथ्य<sup>a</sup>- पाउवृ ४, १२; -थम् वौगृ  
४, ४, १०; -थात् वौगृ ४, ४, ९.

पथ-गामिन्- -मिनः या १४,  
१०.

फँपथे-छा<sup>b</sup>- -छाम्<sup>c</sup> आपमं १,  
६, १२; कागृ २६, १२; वौगृ  
४, २, १४.

पथि<sup>b</sup>- -फँथयः वाश्रौ १, ५, ५, ७<sup>d</sup>;  
पागृ ३, १, २<sup>d</sup>; वौघ २, ६, १३<sup>d</sup>;  
विघ ५, १०६९; -फँथिभिः आश्रौ  
२, ७, ९××; आपथ्रौ; या ८, १९;  
१४, ३; ३१; -थिभ्यः शांश्रौ  
१५, १४, ४; -थिपु वौघ ३, २,  
९; ११; १२; -थीनाम् शांश्रौ  
१६, १, १४; वैताश्रौ २४, १;  
कागृ २६, ७<sup>f</sup>.

पाथेय<sup>e</sup>- पा ४, ४, १०४.

१पथिक<sup>e</sup>- पा ५, १, ७५; पाग  
५, १, १२८; -कः अप २३, ८, १.

पाथिक्य- पा ५, १, १२८.

पथि-कार<sup>f</sup>- पाग ४, १, १५१.

पाथिकार्थ- पा ४, १, १५१;

-र्याः वौश्रौप्र ४१ : १५.

पथि-कृत्<sup>g</sup>- -कृत् आश्रौ ३,  
१०, ११; शांश्रौ १६, १०, ८;

वौश्रौ २७, ६ : २३<sup>m</sup>; २६; अप्राय  
२, ३<sup>f</sup>; -फँकृतः आमिगृ ३, ८, २;  
५७; वौपि १, १५ : ६२; -कृता  
माश्रौ ३, १, ३४; वैश्रौ २०, १५:  
१०; -कृते शांश्रौ ३, ३, २××;  
काश्रौ; -कृद्भ्यः हिपि १८ : ६<sup>f</sup>.

पाथिकृत्<sup>h</sup>- -तम् वौश्रौ  
२३, १ : १०; १२; १७; अप्राय  
३, १०; -तेन हिगृ १, २६, २२.

पाथिकृती- -ती  
आपथ्रौ ९, ४, ५<sup>f</sup>; वौश्रौ; -तीम्  
आपथ्रौ ९, १०, १७; १४, ३१,  
२; वैश्रौ २०, २० : ३; हिपि  
२० : ४; -त्या वौश्रौ २८, ४ :  
३०; हिपि २० : ४; -त्याम्  
अप्राय ५, ३.

पाथिकृत्य(ती-अ)-  
नाग(त>)ता- -ते माश्रौ ३,  
१, ३३.

पथिकृद्-दैवत्य- -त्यम् वैगृ  
६, १९ : ४.

पथिकृद्-वैश्वानरी- -चौं  
वैश्रौ २०, १५ : १०.

पथि-दूत- -तयोः पा ४, ३,  
८५; पावा १, ३, १०.

पथि-देवता-> व(त्य>)त्या-  
-त्या शुअ १, २८३.

पथि-पा<sup>b</sup>- -फँपाः<sup>i</sup> आपथ्रौ ६,  
१८, ३; ७, २३, ६; माश्रौ १, ६,  
२, १३; हिश्रौ ६, ६, १७.

फँपथि-रक्षि<sup>b</sup>- -क्षयः मागृ १,  
१३, १३; वागृ १५, ६; -क्षी

हिपि १८ : ८<sup>f</sup>.

पथि-शब्द- -न्दे ऋप्रा ४, ५३-  
पथ्य(थि-अ)ङ्ग-कर्म-पत्र-पात्र-  
-त्रम् पा ५, २, ७.

पथ्य(थि-अ)दन<sup>k</sup>- -नम् या १,  
१७.

पथ्यु(थि-उ)द्यानो(न-उ)दक-  
समीप- -पे विघ ५, १०६.

पथिल- पाउवृ १, ५७.

पन्थ<sup>a</sup>- > पान्थ<sup>e</sup>- पा ५, १, ७६;  
-न्यः कप्र ३, २, १५.

पन्थक- पा ४, ३, २९<sup>e</sup>.

पन्थनू<sup>b</sup>- -न्यातः फँआपथ्रौ २०,  
२, २; १६, १५; वौश्रौ; -न्यानम्  
आश्रौ २, ५, ६; काश्रौ; या १०,  
२०; -न्यानौ शुअ २, ३९०.

पन्था<sup>b</sup>- पाउ ४, १२; पा ६, १,  
१९९; पावा १, १, ६३; ७, १, १;  
-फँन्याः आश्रौ २, ५, ६; शांश्रौ  
६, १०, १०; आपथ्रौ; आपमं  
१, १, २<sup>1</sup>; आमिगृ १, ५, १ : १<sup>1</sup>;  
कागृ २५, १<sup>1</sup>; वौगृ १, १, १५<sup>1</sup>;  
वागृ १०, ७<sup>1</sup>; जैगृ १, २० : ३<sup>1</sup>;  
या २, २८<sup>f</sup>; ११, ४५; -न्याम्  
आश्रौ १, ३, २५××; आपथ्रौ;  
वागृ १५, २<sup>m</sup>; या १०, २०<sup>f</sup>;  
११, ७.

२पथ<sup>n</sup>- ( >पाथ- पा. ) पाग ४, २,  
१११.

२पथिक- (>पाथिक- पा. ) पथिक-  
टि. द.

√पद्<sup>o</sup> पाधा. दिवा. चुरा. आत्म.

a) =मार्ग-। अधिक्करणे घः प्र. (पा ३, ३, ११८)। b) वैप १ द.। c) पाभे. वैप १, १८९८ d) द.।

d) पाभे. वैप १, १८९८ m) द.। e) पाप्र. <पथिन्- इति। f) व्यप.। उप्त. उप. अण् प्र.। पथि-कारिन्-  
इति पागम., पाथिकारिन्- इति पाका.। g) विप., नाप. (इष्टि-).। h) ष्पा इति छन्दोदशा पाठः।

i) साडस्यदेवतायः अण् प्र.। j) पाभे. वैप १, १८९९ f) द.। k) =पाथेय-। l) पाभे. वैप १, १८९९ p) द.।

m) पाभे. वैप १ लोकम् ऋ १०, ८५, २० टि. द.। n) =ऋपि-विशेष-। व्यु.। o) या २, ७; २८; ५, १९  
अप्रा २, ४, १० परामृष्टः द.।



गतौ, पद्यते भाग्य २, २७ :  
 ११; १७; या ५, १८;  
 पद्यन्ते शांश्रौ १५, १८, १;  
 ऋष्यताम् माश्रौ १, ८, ३, ३७;  
 वाश्रौ १, ६, ५, ९; पद्यन्ताम् शांश्रौ  
 १५, १८, १; अत्र ३, १९; ऋष्य-  
 ऋष्यस्व आपमं २, २१, ३३;  
 भाग्य २, २६ : १६; हिद्य १,  
 १५, ६; पद्यते आपश्रौ ९, ११,  
 २६××; वौश्रौ; पद्येयाताम्  
 आपश्रौ १४, ३३, ४; हिश्रौ  
 १५, ८, ३८.  
 पेदिरे शांश्रौ १५, १८, १;  
 ऋष्यदीष्ट ऋष्या ४, ५७; ५८;  
 शौच २, ५८; अपादि पा ३, १,  
 ६०; पादि वौश्रौ १०, ४ : १७; ऋष्य-  
 अपत्सत शांश्रौ १५, १८, १.  
 ऋष्यदायामि आपश्रौ १३, १८, ९;  
 वौश्रौ ७, १२, ३०××; हिद्य.  
 अपिपादयिषीत् निसू ४, ७ :  
 १६; ८, ५ : ४०.  
 पत्ति<sup>१</sup>— पाठ ४, १८३; -तीनाम्  
 वाधुश्रौ ३, ७९ : १२.  
 पत्ति-गणक— पाग २, २, ९; ५,  
 १, १२९<sup>b</sup>; ६, २, १५१.  
 पात्तिगणक— पा ५, १,  
 १२९.  
 पद्<sup>२</sup>— पा ६, १, ६३; ४, १३०;  
 पत्सु आपश्रौ २०, ५, १९; वौश्रौ  
 १५, ७ : ३; हिश्रौ १४, २, १;  
 पदः आश्रौ ३, ३, १; शांश्रौ;  
 या ९, ७; पदा काश्रौ ७, ८, १०;  
 आपश्रौ; विध २२, ५७<sup>d</sup>; गौघ

९, ५०<sup>e</sup>; या ५, १७<sup>f</sup>; ऋष्या  
 ८, ३३; पदि ऋष्यश्रौ ६,  
 २२, १; १०, २२, १०; वैश्रौ  
 १२, १६ : १४; हिश्रौ ७, २,  
 २२; वौषि १, ३ : २; तैषा  
 ६, २; ऋष्यभिः<sup>१</sup> शांश्रौ ४,  
 १७, १२; काश्रौ २५, ९, १३;  
 माश्रौ १, ८, ३, ३४; हिश्रौ १०,  
 ५, १; पद्भ्याम् आपश्रौ १९,  
 १०, २; वौश्रौ.  
 पच्-छ (<श)द्— पा ६, ३, ५६.  
 पच्-छस् (ः) आश्रौ ५, १४,  
 १३; १५××; शांश्रौ; पा ६,  
 ३, ५५.  
 पच्छः-शस्य, स्या— स्या  
 आश्रौ ५, २०, ३; -स्ये वैताश्रौ  
 २१, ४.  
 पच्छःशस्य-ग(त)ता—  
 -ताम् आश्रौ ५, १४, १३.  
 पत्-कापिन्— पा ६, ३, ५४.  
 पत्-त्स (ः) शांश्रौ ४, १४,  
 ३४; कौघ.  
 पत्त-त्स (ः)<sup>a</sup> अत्रा ३, ४, ११.  
 पत्तो-दश<sup>b</sup>— शेल आपश्रौ<sup>b</sup>  
 ९, ११, २३; २२, ७, २४; हिश्रौ  
 १७, ३, २३<sup>b</sup>; आश्रिद्य ३, ४, १ :  
 ७<sup>b</sup>; ५, २ : ५<sup>b</sup>; वौषि १, २ :  
 १०<sup>b</sup>; हिपि २ : २; २३ : २६.  
 पत्-सङ्गि (न् >) नी<sup>a</sup>— नीः  
 अत्रा २, १, २१.  
 ऋष्यपत्सु-त्स (ः)<sup>a</sup> शांश्रौ ३, ५,  
 १९.  
 पद्-अष्टीव— पा ५, ४, ७७.

पद्-घोष— पा ६, ३, ५६.  
 पद्-घ (<ह)ति— पा ४, १, ४५;  
 ६, ३, ५४; पाग ४, १, ४५; २,  
 ३८.  
 पद्दती— पा ४, १, ४५.  
 पाद्दत— पा ४, २, ३८.  
 पद्-धर (रा >) णी<sup>१</sup>— णीस्  
 वौश्रौ ६, १० : ६; १२ : १२;  
 -ण्याम् वौश्रौ ६, १३ : ९.  
 पद्-धि (<हि)म— पा ६, ३,  
 ५४.  
 पद्-भाव— वे पावा ६, ३, ५२.  
 षपद्य— पा ६, ३, ५२.  
 पद्-वत्— वत् या १, १७;  
 -वते या १, १७<sup>f</sup>.  
 पद्-वती— ती आपमं १,  
 १७, ७.  
 पद्-निष्क<sup>१</sup>— पावा ६, ३, ५६.  
 षपद्नेजन<sup>b</sup>— नेषु अत्राय ३, २.  
 पद्नेज (न >) नी<sup>a</sup>— नीः आपश्रौ  
 १२, ५, १२; १४; वौश्रौ.  
 पद्-मिश्र— पा ६, ३, ५६.  
 पद्<sup>a</sup>— पाग ४, २, ६०; ६१; ३,  
 ७३<sup>m</sup>; पावाग ६, ४, ४१; -दम्  
 आश्रौ २, २, १७<sup>n</sup>; ३, १०,  
 १४××; शांश्रौ; आपश्रौ ६, ५,  
 ७<sup>n</sup>; वौश्रौ १, १ : ३<sup>o</sup>; भाश्रौ ६,  
 १०, ५<sup>n</sup>; माश्रौ १, ६, १,  
 १५<sup>n</sup>; वाश्रौ १, ५, २, १७<sup>n</sup>;  
 हिश्रौ ३, ७, २८<sup>n</sup>; भाग्य  
 २, २ : ४<sup>n</sup>; कौसू १३८,  
 १०<sup>n</sup>; ऋष्या २, ७; ४,  
 १९; १२, १९; १४, १३<sup>o</sup>;

a) वैप १ द्र. । b) पक्षि-गणक—, पत्रि-गणक— इति पाका. । c) नाप. । पाप्र. <पाद्—, पाद्— ।  
 d) पादाभ्याम् इति जीसं. । e) तु. संस्कृतुः टि. Būh. च । f) पामे. पृ १४७५ e द्र. । g) विप. । वस. ।  
 h) सप्र. वाश्रौ ३, ४, ४, १५ पादत्वोद<sup>o</sup> इति पामे. । i) विप. । पूष. = [सोमक्रयणी-] पादांशु- । उप. अधिकरयो  
 क्त. । j) तु. पाका. पासि. । k) पाठः ? पत्नीज<sup>o</sup> इति संस्कृतुः टि. । l) पृ ९३९० द्र. । m) तु.  
 पागम. । n) पामे. वैप १, १९०२ e द्र. । o) = पद्दशाङ्गुल-प्रमाण- ।

पा १,४,१४;६,१,१५८;—द्रयोः  
लाश्रौ ७, ४, २; १०; १९<sup>३</sup>;  
याशि १,१३; भाशि ३३; भासू  
२,२१; —द्रस्य वौश्रौ २१,११ :  
१९;२२; माश्रौ; पा ८,१, १६;  
—ऋदा आश्रौ ४,८, ८; ५,९,१;  
शाश्रौ ७,९,१; ८,१६,१; वौश्रौ;  
—दात् वौश्रौ १९, १ : ७;२०,  
२६;१४; माश्रौ; —दानाम् वौश्रौ  
२६, १० : ५;२३ : ५; वैताश्रौ;  
नाशि २, ७, ४<sup>४</sup>; —दानि आश्रौ  
३, ८, १<sup>१</sup>; ६, ३, ४<sup>४</sup>×; शाश्रौ;  
या २, ७; ३, १३<sup>३</sup>; ४, ४; २५;  
७, २१; ८, २१; १३, ९<sup>१</sup>;  
—द्राभ्याम् लाश्रौ ७, ४, १८;  
वौश्र २० : १५; ऋप्रा १०,  
१९; ११, २४; —दाय लाश्रौ  
७, ६, ४; आपमं १, १४, ६;  
—दायऽदाय जैश्रौ ५, ४<sup>४</sup>××;  
द्राश्रौ; —दे आश्रौ २, १७,  
३<sup>१</sup>××; शाश्रौ; पा ६, २, ७;  
८, ३, २१; —देऽदे आपश्रौ  
१६, १८, ७<sup>१</sup>; वौश्रौ;  
—देन आश्रौ ५,९,१५; शाश्रौ;  
—देभ्यः लाश्रौ ७,६,७; या १,  
१३; १४; —देषु आश्रौ ८, १३,  
८; १०, ९, २; शाश्रौ; या २,  
१; —दैः आपश्रौ ७, ३, १२;  
वाधूश्रौ; —दौ वौश्र १३ : १.  
१पादिक- पा ४,२,६०.  
१पदक- पा ४,२,६१.  
पद-कर्मन्- -र्म मौसू ४,१,२५.  
पद-कार<sup>०</sup>- पा ३,२,२३; —राय  
आप्रिगृ १, २, २ : २९; वौश्र

३,९,६; भागृ ३,११ : २; हिगृ  
२, २०, १; —रेण अप्रा ३,१,  
२१.  
पद-काल- -ले याशि १, ८८;  
२, ५५; ५८.  
पद-कृत्- -कृत् कौशि ४५<sup>०</sup>.  
१पद-क्रम<sup>१</sup>- > ०म-विशेष-इ-  
-ऋः तैप्रा २४,६.  
२पद-क्रम<sup>०</sup>- पाग ४, २, ६०;  
-मम् ऋश्र ३,३९.  
पादकमिक- पा ४,२,६०.  
पद-क्रम-मन्त्र-ब्राह्मण-कल्प-  
शरी(र>)रा- -रा अप ४१,  
६,५.  
पद-ना<sup>१</sup>- पा ६,३,५२.  
पद-नर्त- -नैम् वैश्रौ १२,१७ :  
९.  
पद-गोत्र- -त्राणि शुप्रा ८,५१.  
पद-ग्रहण- -णम् पावा ४, ३,  
१४०; —णेषु तैप्रा १,५०.  
पद-च्छेद- -दम् भाशि १६,  
१३; याशि २, ८३; ८४; नाशि  
१, ३, १३; —दे याशि २,२६;  
५७.  
पद-जात- -तानाम् शौच १,१;  
—तानि या १, १; १२; ऋप्रा  
१२,१७.  
पद-जाति- -तिः वृदे २, ११४;  
—तीनाम् नाशि २,४,१०.  
१पद-(ऋ>)ज्ञा<sup>०</sup>- -ज्ञाः अश्र  
७,७५; अर्ष ३ : ३८.  
पद-त्वः(ः) वाश्रौ ३,४, १, २३;  
पावा २,२,२३.  
पद-ता- -ताम् ऋप्रा ११, २५;

३३.  
पद-वृतीय<sup>०</sup>- -यम् वौश्रौ ६,  
२४ : २५; २५, ११ : ३; भाश्रौ  
१०,१५,१७; —यस्य वैश्रौ १४,  
५ : १४; हिश्रौ ७,५,२; —येन  
आपश्रौ ११, ६, ४; वौश्रौ १४,  
३ : ४.  
पद-त्रय- -ये वैगृ ५,१ : १४.  
पद-त्व- -त्वात् शौच ४,९८.  
पदत्व-प्रतिषेध- -धेन अप्रा  
३,३,२१.  
१पद-देवता<sup>१</sup>- -ताः शुप्रा ८,  
५२.  
२पद-देवता<sup>१</sup>- -ते द्राश्रौ २, २,  
३१.  
पद-दैवत- -तम् लाश्रौ ७, ६,  
२५; निसू ३, ११ : १५; १९;  
६, ७ : ४.  
पद-द्वय- -यम् भाशि १२९;  
कौशि ५४.  
पद-नाश- -शो वैश्रौ १४, ५ :  
१६.  
पद-निधन- -नम् छसू १, २ :  
२२; २, १५ : ९; ३, ७ : ११;  
निसू ३, १० : ४१; ४, ७ :  
२०; २७; —नानि निसू २, ३ : २;  
६; ९; —ने लाश्रौ ६,११,४.  
पद-निवृत्त्य(ति-अ)र्थ- -र्थः  
पावा ८,२,८२.  
१पदंदिनाम् वैश्रौ १३, ७ : १४.  
पद-न्यास- -सम् विध ११,६;  
१९,८; —सैः विव १,२९.  
पद-पङ्क्ति<sup>१</sup>- -ङ्क्तिः शाश्रौ ७,  
२७,२५; निसू १,३ : २५; ऋश्र

a) पादानाम इति लासं ।

b) विप. > व्यप. ।

c) पदक्रमात्रेयः इति पाठः ? कृत्, मात्रे इति

शोधः (तु. तं. कारडानुक्रमणि २७) ।

d) पस. ।

e) दस. । पृ ९३९ ० द. ।

f) = पदाति. । उप.

<√गम् ।

g) तु. PW.; वृत्. WLJW पद-ज्ञा- [विजन्तम्] इति ।

भाष्यम्) । i) दस.पू. = पाद- (तु. धन्वी) । j) वैप १ द. ।

h) पू. = पद-पांशु- (तु. हिश्रौ.

-इक्तिभिः माश्रौ ६, २, २, २१;  
 -इक्तीः काश्रौ १७, १२, १४<sup>४</sup>.  
 पदपाङ्क्त<sup>०</sup> -इक्तः ऋअ २,  
 ४, १०; शुअ २, २२६.  
 पद-पदार्थ-प्रकृति-विकारा (र-आ)  
 गम-लोप-कृत्-तद्धित-समास-  
 धातु-निपातो(त-उ)पसर्ग-स्वर-  
 लिङ्ग-वृत्ति-वार्तिक-विभक्त्यर्थ-  
 वचन-ञानाम् नाशि १, ३, ५.  
 पद-पांसु-सून् वौश्रौ ६, २४:  
 ३६; २८: १७×४; वैश्रौ १४,  
 ८: ३; -सूनाम् वौश्रौ ६, २४:  
 २९; २३, ३, १०.  
 पद-पार<sup>०</sup> -रः चव्यू २: १९.  
 पद-पूरण-णः या १, ५<sup>३</sup>; ६; ७;  
 -णाः या १, ४; ९.  
 पद-पूर्व<sup>०</sup> -र्वम् शुप्रा २, १५;  
 १७; -र्वस्य पावा ८, १, ७२.  
 पद-प्रकृति-स्या लनिसू २:  
 १२.  
 पद-प्रकृति<sup>०</sup> -तिः या १, १७;  
 ऋप्रा २, १; -तीनि या १, १७.  
 पद-प्रत्यवरोह-हम् निसू ३,  
 ४: २५.  
 पद-प्रवाद-वे ऋप्रा ४, ४९.  
 पद-मध्य-गत-त्तेपु शैशि २७५.  
 पद-मात्र-त्रे आश्रौ २, १६,  
 १३; ४, २०; काठश्रौ ४९;  
 -त्रेण वौश्रौ २६, १४: ९.  
 पद-लक्ष-क्षम् ऋअ ३, ४५.  
 पद-लोप-पः पावा ३, १, ८७;  
 -पे पावा ८, ४, १४; -पेषु अत्रा  
 १, १, २०.

पद-लोभन<sup>०</sup> -नः माश्रौ ४, ४,  
 ३३.  
 पदलोभन-प्रभृति-ति  
 माश्रौ ६, २, ६, १.  
 पद-वचन-नम् पावा ५, २,  
 ८४.  
 पद-वत् ऋप्रा १, ६१; उसू ४,  
 ११×४; कौशि ४७.  
 ?पदवत्-स्तोभ<sup>०</sup> -भाः निसू  
 ३, १२: २४.  
 पद-वाक्य-क्ये कौशि ७६.  
 पद-वाय<sup>०</sup> -यम् अत्र १२, ५<sup>३</sup>.  
 पद-विकार-रः मीसू ९, ४,  
 १९.  
 पद-विच्छेद-दः शुप्रा १, १५६.  
 पद-विद्<sup>०</sup> -वित् वौध २, ६,  
 ३२; माशि २, १४.  
 पद-विधि-धिः अत्रा १, १, ३;  
 पा २, १, १; पावा २, १, १; ६,  
 १, ८४.  
 पद-विभाग-गः या १, १७;  
 अत्रा १, १, ४.  
 पद-विराम-मः तैप्रा २२, १३.  
 पद-विद्युत्ति-स्याम् तैप्रा २०,  
 ६.  
 पद-विष्कम्भ<sup>०</sup> -म्भाः वौश्रु ४:  
 २४.  
 पद-वी<sup>०</sup> -पावाग ४; ४, १<sup>१</sup>;  
 -वी<sup>०</sup> आश्रौ ४, ११; ६; विध  
 ४८, ६; या १४, १३<sup>३</sup>.  
 पादविक-पा ४, ४, ३७; पावा  
 ४, ४, १.  
 पद-वीय<sup>०</sup> -यम् आश्रौ ३, ८,

१<sup>१</sup>.  
 पद-वृत्त-प्रतिषेध-धः पावा  
 ५, ३, ८४.  
 पद-वृत्ति-त्तयः ऋप्रा २, २६;  
 ४, ६७.  
 पद-व्यक्त-क्तम् शैशि २११.  
 पद-व्यवाय-ये वृदे २, ११३;  
 अत्रा २, ४, ४; पा, पावा ८, ४,  
 ३८.  
 पद-व्यवेत-तम् ऋप्रा ११,  
 १३.  
 पद-व्याख्यान<sup>०</sup> (> पादव्या-  
 ख्यान-पा.) पाग ४, ३, ७३.  
 पद-शत-तानि आपृशु ५ १३;  
 हिशु २, २४.  
 पद-शब्द-नवन्-व कौशि ३५.  
 पद-शास्<sup>०</sup> वौश्रौ १९, १०:  
 १५<sup>३</sup>; २५-२७; वृदे ८, १०१.  
 पद-शेष-पम् उसू ८, १५.  
 पद-संहि (ता >) त<sup>०</sup> -तम्  
 ऋप्रा ११, १.  
 पद-संहिता-> ता-विद्<sup>०</sup> -  
 विदः ऋप्रा ११, ६६.  
 पद-संहिता<sup>०</sup> -ताम् तैप्रा  
 २४, २; ३.  
 पद-संघात-ज-जम् वृदे २,  
 ११७.  
 पद-संज्ञा-ज्ञाः नाशि २, ७, ५;  
 -ज्ञायाम् पावा १, ४, १४.  
 पदसंज्ञा(ज्ञा-अ)भाव-व-  
 पावा १, १, ६२; ४, २१.  
 पदसंज्ञा(ज्ञा-अ)र्थ-र्थम्  
 पावा ४, १, १.

a) = इष्टका-विशेष-। b) तस्येदमर्थे ऋणि प्र. उप. वृद्धिः उत्स. (पा ७, ३, १०)। c) विप.। उत्स.।  
 पृ ९३९ व अपि यनि. शोधः। d) विप.। वस.। e) = पद-सोपन-। विप.। उत्स. उप. < √ लुभ् (= √ लुप्)।  
 पा<sup>०</sup> इति मूको.। f) पाठः ? तु. दशस्तो<sup>०</sup> इति संस्कृतुः टि.। g) वैप १ द्र.। h) उप. < √ विद्-  
 [ज्ञाने]। i) पस. वा सस. वा। j) तु. पागम.। k) पाभे. वैप १, १९०३। द्र.। l) पद-, व्याख्यान-  
 इत्यपि पागम.। m) समाहारे द्वस.। n) पूष. द्वस.। o) पस.।

पद-संज्ञा-समाकुल- -लः याशि १,३०.

पद-संघातु- -तु लाश्रौ ७, ९, १०.

पद-संधि- -धिषु ऋप्रा २, १४.

पदसंध्य(धि-अ)दर्शन- -नात् ऋप्रा ११, १३.

पद-सामानाय<sup>०</sup>- -याः आश्रौ ५, ९, १७.

पद-समूह- -हे शुप्रा ४, १७७.

पद-सविशेष- -पेण वीशु १० : ३; २० : १५.

पद-सहस्र- -स्रम् आपशु ५, ८; हिशु २, १७; -त्सेण माशि १६, ९.

पद-सांख्य- -ख्यम् भाशि १३०.

पद-सामानाधिकरण्य- -ण्यात् पावा १, २, ४३; -प्ये पावा २, ३, ४६.

पद-स्तोभ<sup>०</sup>- -भः क्षुसू ३, ७ : १३; निस् ६, १० : १८; -भाः वाध २८, १३; विध ५६, ११; शंघ १०५<sup>०</sup>; -मान् निस् ८, ९ : १९; ३८; -भेषु लाश्रौ ७, ७, १.

पदस्तोभ-वाधित- -त्तम् निस् ८, ९ : ३४.

पद-स्थ- -स्थः निस् ३, ६ : २४; -स्थानि निस् ३, ५ : २३.

पद-स्नात- -तस्य कौसू ६४, ३.

पदा(द-अ)क्षर-सामानाय- -यम् ऋअ ३, ६.

पदा(द-अ)क्ता(ङ-अ)धिकार- -रे पावा १, १, ७२.

पदा(द-अ)जि- पाठ ४, १३२; पा ६, ३, ५२.

पदा(द-अ)ति- पाठ ४, १३२; पा ६, ३, ५२; पाग ४, २, ३८;

-तिः आमिगृ १, ६, १ : ८; -तिभिः अप ७१, १९, ४.

पादात्- पा ४, २, ३८.

पदा(द-अ)दि- -दयः ऋप्रा ५, ६; -दिः लाश्रौ ६, १०, २२;

१२, १०; ऋप्रा ६, १२; शुप्रा १, १६७; याशि २, ५७; -दिभिः अप ४६, २, ४; ऋप्रा २, २;

-दिषु ऋप्रा ४, ७; ६, २३; पावा ६, १, ६२; -दीन् निस् ३, १३ :

८; -दीनाम् उस् ८, २; -देः ऋप्रा ११, ५४; शौच ३, ५३;

-दौ लाश्रौ ७, ७, २४; शैशि २०४; माशि ८, ७; याशि २, ५२; नाशि २, २, १६; १७; पा

८, २, ६; पावा १, ४, १३.

पदादि-ना<sup>०</sup>- -नाः भाशि ५१.

पदादि-ग्रहण- -णम् पावा ८, ३, ३२.

पदादि-पर-वचन- -नम् पावा ८, ४, ३५.

पदादि-विधि-प्रतिषेध- -धः पावा ६, १, १.

१पदा(द-अ)देश- -शस्य, -शे पावा ३, ४, २.

२पदा(द-अ)देश<sup>०</sup>- -शे पावा ६, ३, ५१.

पदा(द-अ)द्य- -द्यम् याशि २, ५१.

पदा(द-अ)द्य(दि-अ)न्त- -न्तम् याशि २, ८१; -न्तयोः भाशि २६.

पदा(द-अ)धिकार- -रः पावा ८, १, १७; २, ६; -रस्य पावा ८, १,

१७; २, ७; -रात् पावा ८, १, १; १७; २, ८०.

पदा(द-अ)ध्ययन- -नम् शौच ४, १०७.

पदा(द-अ)ध्याय- -यः कौशि ४३.

पदा(द-अ)निर्देश- -शे लाश्रौ ६, १०, २३.

पदा(द-अ)नुपूर्व- -र्वम् आश्रौ ६, २, ११.

पदा(द-अ)नुपूर्व- -न्व्येण ऋप्रा ११, १५.

पदा(द-अ)नुरूप- -पान् निस् ३, १२ : ३७; -पे निस् ३, १२ : ४३.

पदा(द-अ)नुपङ्ग- -ङ्गान् शाश्रौ १७, १४, ३; १८, १९, १०.

पदा(द-अ)नुसारि-पद्धति- -त्या वृदे ८, ३५.

पदा(द-अ)नुस्वार, रा- -रस्य क्षुसू ३, १० : १४; -रा क्षुसू ३, १० : १३; -रे निस् १०, २ : ३७.

पदा(द-अ)न्त- -न्तः लाश्रौ ६, ११, ६; १२, ३×४; ऋप्रा;

-न्तम् लाश्रौ ६, १०; २९; नाशि २, ३, ९; -न्तयोः शुप्रा ४, १२७;

तैप्रा १६, १४; शौच २, २१; -न्तस्य उस् ७, १; शैशि २२०;

२७४; ३२१; मासू ३, १२; पा ८, ४, ३७; ५९; -न्ताः नाशि २, ४, १०;

-न्तात् शैशि २४२; पा ६, १, ७६; १०९; ८, ४, ३५;

पावा ६, १, ७५; -न्तान् लाश्रौ ७, ७, २८, ऋप्रा १, ५८; २, २;

-न्तानाम् उस् ८, १; शौच २, २; -न्ताभ्याम् पा ७, ३, ३;

२; -न्ताभ्याम् पा ७, ३, ३;

a) विप. १ वस. १ b) पृ ४४५ f टि. द्र. १ c) ष्माः इति पाठः? यनि. शोधः । d) उप. <

✓गम् । c) मलो. कस. १

-न्ते लाश्रौ ७, ३, २; ४; ७, २३; क्षुस्; -न्तेभ्यः ऋप्रा ३३, २३; -न्तैः श्रुप्रा ४, ५; -न्तौ श्रुप्रा ४, १०८; शौच ३, ५५.

पदान्त-ना<sup>०</sup> - नाः कौशि १४; शैशि २६३; २८१.

पदान्त-ग्रहण- -णम् पावा ८, २, १०७.

पदान्त-द्विर्वचन<sup>०</sup> पा १, १, ५८.

पदान्त-पदादि- -चोः श्रुप्रा ३, ३; पावा ६, १, ८५.

पदान्त-वत् श्रुप्रा १, १५३; शैशि २०६; पावा ७, ४, ८५.

पदान्त-विकृत- -तानाम् शौच ४, ८१.

पदान्त-विधि-प्रतिषेधा (ध-अ)र्थ- -र्थम् पावा ५, २, ५१.

पदान्त-स्पर्श-युक्त- -क्तम् शौच ३, ८९.

पदान्ता(न्त-अ)वग्रह- -हयोः शौच १, ४५.

पदान्तीय<sup>b</sup> -यः ऋप्रा ६, १५; श्रुप्रा ३, ८९; शैशि २९१; -याः ऋप्रा ६, २३; श्रुप्रा १, ८५; -यात् शैशि २६८; -यौ शैशि २९३; याशि २, ५४.

पदान्त्य, न्त्या- -न्त्यः शौच १, ३; -न्त्या अप<sup>०</sup> १ : ४७.

पदा(द-अ)न्तर- -रम् वैश्रु ५, १ : २७; माशि ४, १४; -रे माशि ६३, २; -रेण अश्रु १२, ५.

पदा(द-अ)न्तराल- -लेषु आपश्रौ १७, १७, ४; हिश्रौ १२, ५, ३४.

पदा(द-अ)न्तादि- -दिषु ऋप्रा

२, ५; -चोः शैशि ३०३; ३१३.

पदान्तादि-वत् ऋप्रा २, ६.

पदा(द-अ)न्यत्व-प्रधानत्व- -त्वात् मीस् ९, १, ५४.

पदा(द-अ)भिहोम- -मम् वैताश्रौ १३, ६; -मात् द्राश्रौ १४, १, ११; लाश्रौ ५, ५, ८.

पदा(द-अ)भेद- -देन ऋप्रा १७, २४.

पदा(द-अ)भ्यास- -सात् अश्रु १२, ५(२).

पदाभ्यास-प्रतिषेध- -धः आश्रौ २४, १४, १७.

पदा(द-अ)यत्न- -ने हिश्रौ ७, २, २८.

पदा(द-अ)र्थ- -र्थः वृदे २, १०८; या १, ३; पावा २, १, १; -र्थम् अप १, ८, ९; -र्थाः या १, ३; -र्थात् पावा १, २, ४५.

पदार्थ-त्व- -त्वात् पावा ८, १, ४.

पदार्थ-संभावना(ना-अ)न्वच-सर्ग-गर्हा-समुच्चय- -येषु पा १, ४, ९६.

पदार्था(र्थ-अ)भिधान- -ने पावा २, २, २४.

पदार्था(र्थ-अ)भिसंबन्ध- -न्धस्य पावा १, २, ४५.

पदा(द-अ)र्थ- -र्थम् माश्रौ २, २, ४, २५.

पदार्थ-व्यास- -सम् वौश्रु ४ : २२.

पदा(द-अ)वग्राहम् वैताश्रौ ३२, १४; १९; २०.

पदा(द-अ)वलि- -लिः कौशि ५१.

पदा(द-अ)वृत्ति- -त्तौ श्रुप्रा ४, २०.

पदा(द-अ)शय- -यम् वौश्रौ ६, १३; १५; १०, २ : २१.

पदा(द-अ)स्वैरि-वाह्या-पक्ष्य- -क्ष्येषु पा ३, १, ११९.

पदा(द-अ)हुति<sup>०</sup> - -तिः वौश्रौ २५, ८ : १४.

पदिक- पात्रा ४, २, ६०<sup>d</sup>; ६, ३, ५२; -कम् काश्रु ७, ३४.

पदे(द-इ)तरा(र-अ)र्थ- -र्थान् या १, १३; १४.

पदे(द-ए)कदेश- -शम् आपश्रौ १९, २०, ११; हिश्रौ २२, ३, २७; -शाः ऋप्रा ९, ३१.

पदेकदेश-सुव(व-अ)लोप- -दर्शन- -नात् पावा ५, २, ५९.

पदो(द-उ)त्तम- -मैः अप ४६, २, ४.

पदो(द-उ)त्तरपद- -दम् पा ४, ४, ३९; -दात् पावा ४, २, ६०.

पदो(द-उ)पस्पर्शन- -नम् आपव १, ३१, ६; हिध १, ८, २४.

पदो(द-उ)पहत- पा ६, २, ५२.

पदोपहता(त-अ)र्थ- -र्थम् पावा ६, ३, ५१.

२पद्य, घा<sup>०</sup> - पा ४, ४, ८७<sup>f</sup>;

-घः शौच १, ३; ४; -घम् पाट १, ३, ५<sup>g</sup>; ऋप्रा १, ७४; शौच १, ५७; -घा जैश्रु १, १९ :

३४<sup>f</sup>; -घाः ऋप्रा २, १२; ५, २७; ९, १५; -घान् ऋप्रा १, ६१; -घानि आपश्रौ १०, ५;

१३; माश्रौ १०, ३, २०; वैश्रौ १२, ६ : ७; हिश्रौ ७, १, ३८;

a) उप. <√गम् । b) विप. (वर्ण-विशेष-): । c) पू. = पदपांशु- । d) तु. पागम. । e) तत्र-

भवाद्यथेषु यत् प्र. । f) नाप. । g) [=पादार्थः]- आसन- । पाद्यम् इति राजा. लाघासं. ।

-घामिः शांश्रौ १२, १९, ४१;  
 -घाम् गोश्र ४, १०, २१;  
 -फँघाय<sup>१</sup> आपसे २, ९, १३;  
 वीश्र १, २, २८; -फँघायै<sup>१</sup> शांश्रौ  
 ४, २१, ३; आश्र १, २४, १६;  
 कौश्र ३, ४, ६; शांश्र ३, ७, ५; भाश्र  
 २, २४ : ३; माश्र १, १, ७; वाश्र  
 ११, ५; हिश्र १, १३, १; -घे  
 ऋप्रा ४, ८५; ६, २५; उस् ५,  
 २; -घेन वाश्र ११, १३<sup>१</sup>; -घेषु  
 ऋप्रा ९, २५; उस् ६, १.  
 पद्या (घा-अ)अ(र्यं >)र्या-  
 र्यं ऋप्रा १८, ३.  
 पद्या(घ-आ)दि- दीन् ऋप्रा  
 ३, २५.  
 पद्यादि-भाञ्- भाक्  
 ऋप्रा ५, २१.  
 पद्या(घ-अ)न्त- न्तः ऋप्रा  
 ४, ६५.  
 पदन- पा ३, २, १५०.  
 पदि<sup>१</sup>- दिः या ५, १८६; -दिस्  
 निघ ४, २१; या ५, १९१.  
 पदन्- पाठ ४, ११३; -फँद्वा<sup>१</sup>  
 आपश्रौ १०, १, ५; भाश्रौ १०, २, ४;  
 वैश्रौ १२, १, १३; हिश्रौ ७, १, ३.  
 पपन्न- न्नाः या १२, १९; -फँन्नात्  
 कौश्र ५, ३, ३१<sup>१</sup>; आमिश्र ३, ६,  
 १ : २९; वीपि १, ९ : ५; हिपि  
 ८ : ३.  
 पन्न-र्ग- नास्य कौश्र ४, २, ३;  
 -गाः अप ५२, ८, ४; सु २४, १;  
 -गान् वाश्रौ ३, ४, ३, २२;  
 -गेभ्यः माश्र २, १२, १७.

पन्न-द्व<sup>१</sup>- द्वम् काश्रौ ६, ३, १९;  
 काठश्रौ ५२; माश्रौ १, ८, २, ३.  
 पन्न-दत्<sup>१</sup>- दन् हिश्रौ ४, ३, १.  
 पन्न-दन्त<sup>१</sup>- न्तम् वैश्रौ १०,  
 ९ : १३.  
 पाद्<sup>१</sup>-> पान्-नेजन<sup>१</sup>- नन् वीश्रौ  
 ७, ३ : १०; २९, ६ : १७;  
 माश्रौ २, ३, २, २०; २३; ५, २,  
 २१; -नान् काश्रौ ९, ३, ८.  
 पान्नेजनी- नीभिः काश्रौ  
 १०, ७, ४; -नीम् आपश्रौ १२,  
 ५, ३; -न्याः अप्राय ६, ५.  
 पान्नेजन-पाणि<sup>१</sup>-> पाणि-  
 (न् >)नी- नीम् माश्रौ २, ३,  
 २, १२.  
 पान्नेजन-पात्र- त्रम् वैश्रौ  
 १५, ६ : २.  
 पान्नेजन-ह(स्त >)स्ता-  
 -स्ताम् काश्रौ ६, ६, १.  
 पपाद<sup>१</sup>- पा ३, ३, १६; पान ४,  
 ४, १०; १२; ५, १, २०; २, २४;  
 ६४<sup>१</sup>; ६, १, २०३; २, १९४;  
 -दः शांश्रौ १३, १, ७; आपश्रौ;  
 या २, ७६; ७, ९; ११, ६; १२,  
 २९१; ऋप्रा ३, ४, ११<sup>१</sup>; पा ४,  
 १, ८; ६, ४, १३; -दःऽदः  
 आपश्र २, २७, १२; हिश्र २,  
 ५, २३१; -दन् आश्रौ ८, ३,  
 १०; शांश्रौ; या १२, २९१;  
 -दमऽदम् विघ ५५, ११;  
 -दयोः आश्रौ ४, ९, ३; ५, १४,  
 ११; ६, ३, ११; शांश्रौ; -दस्य  
 शांश्रौ ९, ५, १२; १०, ५, १०××;

निस्रः; -दा<sup>१</sup> वीश्रौ ८, १९ :  
 १२; -दाः शांश्रौ १७, २, ७;  
 आपश्रौ ५, १७, ४१; वीश्रौ; या  
 १३, ७१<sup>१</sup>; -दाव भाश्रौ ५,  
 २०, २; -दान् आश्रौ ६, ३, ३;  
 ७××; शांश्रौ; -दानाम् जैश्रौका  
 ९३; निस्र २, १२ : २०; अप;  
 -दाभ्याम् आश्रौ ८, २, १०;  
 शांश्रौ; -दाय द्राश्रौ २, २,  
 ३०; लाश्रौ १, ६, २८; -दै  
 आश्रौ १, १, १८; शांश्रौ; या  
 १०, १६; -देन आश्रौ १, १, २३;  
 शांश्रौ ९, ५, ५××; काश्रौ; या  
 ५, १७; ७, १२; १२, २९; -देषु  
 आश्रौ ७, ११, ९××; लाश्रौ;  
 -दैः आश्रौ ५, १४, १६; वैश्रौ;  
 या १२, १९; -दौ आश्रौ ५,  
 १५, ६; १२, ९, ८; ९; शांश्रौ.  
 पाद-क- पा ५, २, ६४.  
 पाद-कर- रयोः वैश्र ५, २ : ३.  
 पाद-कि ( ण्व >) ण्वा<sup>१</sup>- ण्वा  
 वीश्रौ २६, २२; १७.  
 पाद-कुठारिका- काम् शांश्र  
 ४, ८, ११.  
 पाद-कृच्छ्र<sup>१</sup>- च्छ्रः शंघ ४३२;  
 -च्छ्रम् वैश्र ६, ९ : ३; १०,  
 १; १५ : ११; १९ : ३; ७.  
 पाद-केशां(श-अं)शुक-कर-  
 लुण्ठन- ने विघ ५, ६५.  
 पाद-गृह्य<sup>१</sup> पाग २, १, ७२.  
 पाद-ग्रहण- णम् विघ ३२,  
 १५; -णे आश्रौ १, १, १७;  
 उनिस्र १ : ३५.

a) स्या. पद्याग <> पद्यायै <> पाद्यायै इति पाभे. । b) = उदक- । c) वैप १ द्र. । d) स्या.  
 तां १, १, ४ यद्वा इति पाभे. । c) पर्णात् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. तैशा ६, ३, ३) । f) = सर्प- । उप.  
 < ✓गम् । g) विप. । वस. उप. नैप्र. < दत्- , यद्वा दन्तस्य दः उत्तं. (पा ५, ४, १४२) । h) विप. ।  
 वस. । i) = १पाद्- । j) विप., नाम. (माश्रौ.) । उप. < ✓निञ् । k) विप. (पत्नी-) । मलो. क्त. ।  
 l) निपाद- इति पाका. । m) दायादः इति त्वात् । n) = पादौ । o) = वत-विशेष- । p) [पदे] भाग्यडा. ।

पाद-ग्राह्य- -ह्याः बाध १३, ४२.  
 पाद-घोष- पा ६, ३, ५६.  
 पाद-च्छेद- -दे अप ६८, २, ११.  
 पाद-जङ्घा- -ङ्घे अप २२, ५, १.  
 पाद-जाह- पा ५, २, २४.  
 पाद-ज्ञान- -नस्य ऋप्रा १७, २५.  
 पाद-तस्रः (: ) निस् ३, १३ : ३३;  
 कौगु ३, १०, १४†; ५, ६, ५; शाण्ट.  
 पादतो-दश<sup>a</sup>- -शेन वाश्रौ ३,  
 ४, ४, १५<sup>b</sup>.  
 पाद-निदृत्<sup>c</sup>- -चृत् ऋअ १, ४,  
 ४; २, १, ३०××; शुअ; -चृत्तौ  
 ऋअ २, १, १७.  
 पाद-निष्क<sup>d</sup>- पावा ६, ३, ५६.  
 पाद-न्यून- -ने शंघ ४४६.  
 पाद-प<sup>e</sup>- -पाः अप ५७, १, ७;  
 ७०<sup>३</sup>, ७, २; ७१, १५, १; -पान्  
 बाध १९, ११; -पानाम् काध  
 २८ : ६.  
 रपादप- पा ४, ३, ११९.  
 पाद-पाष्णी- -ण्यार्मि कौस् ४२,  
 २१.  
 पाद-पीठ- -ठम् अप ५, २, ५.  
 पाद-पूरण<sup>f</sup>- -णः ऋप्रा १२, २५;  
 -णम् पा ६, १, १३४; -णे पा  
 ८, १, ६.  
 पादपूरण-त्व- -त्वात् आपशु  
 ३, १६; हिशु १, ५७.  
 पादपूरणा(ण-श्र)र्थ- -र्थम्  
 ऋअ १, ३, ६; शुअ ५, ६.  
 पाद-प्रक्षालन- -नम् लाश्रौ १,  
 २, २<sup>g</sup>; आमिगु ३, ३, २ : ८;  
 -नात् हिध १, २, ८४.  
 पादप्रक्षालन-क्रम- -मेण

आमिगु ३, ३, १ : १८.  
 पादप्रक्षालनो (न-उ)च्छेषण-  
 -णेन बौध १, ५, १०.  
 पादप्रक्षालनो(न-उ)त्सादना-  
 ( न-अ )नुलेपन- -नाणि (?नि)  
 आपध १, ११, १३<sup>h</sup>.  
 पादप्रक्षालनो(न-उ)त्सादना  
 (न-अ) वलेखना (न-अ) नुलेपन-  
 -नानि<sup>i</sup> हिध १, २, ९३; ३, ६८.  
 पाद-प्रतापन- -नम् शंघ ४३९.  
 पाद-प्रभृति- -ति बाध २०,  
 ४२; गौपि १, २, ३३.  
 पाद-प्रमाण<sup>j</sup>- -णम् काशु ३, ८;  
 आपशु ३, १५; हिशु १, ५६.  
 पाद-भाग<sup>k</sup>- -णेन शाश्रौ ७, २७,  
 २९.  
 पादम् पा ३, ४, ५६.  
 पाद-मात्र, त्रा- -त्रः शैशि ३८;  
 -त्रम् आश्रौ ६, १०, ६; -त्रा  
 शैशि ३५; -त्रे काश्रौ १६, ७, ३.  
 पादमात्री- -त्री काश्रौसं  
 २५ : २; काशु ५, ६;  
 आपशु ११, ४; हिशु ४, ५;  
 -त्राः काश्रौ १७, १, १४;  
 २३××; आपश्रौ; -त्रीम् काश्रौ  
 १७, ४, १२; बौश्रौ २२, २ : २;  
 -त्र्यः आपश्रौ १६, १३, ६;  
 वैश्रौ १८, ११:२२; आपशु ११,  
 २; हिशु ४, ३; -त्र्यौ काश्रौ १७,  
 १, १०.  
 पादमात्रिक (>)का- -का  
 शैशि ११५.  
 पाद-मिध- पा ६, ३, ५६.  
 पाद-युज्- -युक् अश्र ४, ४०.  
 पाद-लेप-तस्रः(:) अप ३५, २, २.

पाद-वत् बौशु २१:८; ऋप्रा १,  
 ५७; मीस् ६, ७, २०.  
 पाद-वत्- -वान् मैश्र ६.  
 पाद-विभाग- -णेन माशि १३,  
 ४.  
 पाद-विशेष- -पात् ऋअ १, ३,  
 ७; शुअ ५, ७.  
 पाद-विहरण- -णे पा १, ३, ४१.  
 पाद-वृत्त<sup>k</sup>- -त्तः शुप्रा १, ११९;  
 तैप्रा २०, ६; शौच; -त्तम्  
 माशि ७, ७; -त्तयोः ऋप्रा १,  
 ६०.  
 पादवृत्ता(त्त-अ)न्त<sup>l</sup>- -न्तः  
 शैशि २३८.  
 पादवृत्ता(त्त-अ)भि (घा > )  
 ध<sup>m</sup>- -धः कौशि १७.  
 पाद-वृत्ता ( त्त-अ )क्षर- -रैः  
 ऋप्रा १७, २१.  
 पाद-व्यवस्था- -स्था मीस् २,  
 १, ३३.  
 पाद-शत- -तस्य पा ५, ४, १.  
 पादशत-ग्रहण- -णम् पावा  
 ५, ४, १.  
 पाद-शब्द- पा ६, ३, ५६.  
 पाद-शस्त्र (: ) मागु १, २२, १४.  
 पाद-शोधित्- -धी वैश्रौ १, १६:  
 २.  
 पाद-शौच- -चात् विध ९१,  
 १८.  
 पाद-संस्थान<sup>n</sup>- -ने याशि १, १५.  
 पाद-संज्ञा- -ज्ञा अनिसू २ : २३.  
 पाद-सूक्त-ऋगु-अथर्व-नामन्-  
 -मानि वृदे २, ९८.  
 पाद-स्थान- -नम् नाशि २,  
 ६, १.

a) विप. । वस. । b) पाभे. पृ १४८५ h द्र. । c) = गायत्री-भेद- । d) तु. पाका. पासि. । e) = वृक्ष- ।  
 उप. < ✓पा. [पाभे] । f) उप. कर्तारि दृत् प्र. । g) = जल- । उप्त. उप. करणे प्र. । h) सपा. पादप्रक्षालनम् ।  
 <> पाचम् इति पाभे. । i) परस्परं पाभे. । j) मलो. कस. । k) = स्वर-विशेष- । l) = पाद-समाप्ति- ।

पाद-स्युष्ट- -ष्टैः वैध ३,४,१२.  
 पाद-स्वेदन- (>निक- पा.)  
 पाग ४,४,१९.  
 पाद-हारक- पावाग २,१,३३.  
 पाद-हीन- -नः सु ३,४.  
 पादा(द-अ)ग्र-तस्(ः) अप ३५,  
 १,७.  
 पादा(द-अ)ङ्गुली- -लीषु  
 शांश्रौ ४,१५,२०; जैगृ २,४:५.  
 पादा(द-अ)ङ्गुष्ठ- -ष्टे वौध २,  
 ७,१०; -ष्टेन वैगृ २, ५: १२;  
 ३,३:६.  
 पादा(द-अ)दि- -दिः भासू २,  
 ३; ऋप्रा २,३४; ४,५६; -द्विषु  
 आपगृ ११,११; वौगृ २,५,४०;  
 -दीनाम् अप्रा १, १, १९;  
 ३, ८; -दौ ऋप्रा २, ६०;  
 ७०<sup>२</sup>xx; अप्रा.  
 पादादि-वत् अप्रा १,१,२०.  
 पादा(द-२अ)द्य- -द्यम् याशि  
 २, ५१.  
 पादा(द-अ)न्त- -न्ते ऋप्रा ९,  
 १९;३९;१६,७७; पा ७,१,५७;  
 -न्तेषु निसू २,१२:२१; -न्तौ  
 ऋप्रा ८,४८.  
 पादान्त-गत- -ते ऋप्रा ४,  
 ४४.  
 पादान्त-वृत्त- -त्तस्य नाशि  
 २,१,७.  
 पादा(द-अ)म्यङ्ग- -ङ्गम् विध  
 ६७,४६.  
 पादा(द-अ)र्थ- -र्थम् पागृ १,३,  
 ५.  
 पादा(द-अ)र्ध- -र्धाः वृदे ४,८.

पादा(द-अ)वेनक्त- -क्ता आपध  
 २,२६,१५; हिध २, ५,२१०.  
 १पादा(द-अ)वनेजन- -नम्  
 आपश्रौ २२,३, १६; आपध १,  
 ३१,१; हिध १,८,१९.  
 १२पादा(द-अ)वनेज(न>)नी<sup>०</sup>-  
 -नीः आपमं २,९,१०, वौगृ १,  
 २,२०; भागृ २,२३: ८; कौसू  
 ९०,११.  
 पादिन्- -दिनः आपश्रौ २१,  
 २, १९; वाश्रौ ३, २, १, १५;  
 हिश्रौ १०,४,४२; १६, १, ३६;  
 -दिभ्यः आश्रौ ९,४,५; माश्रौ  
 २,४,५,७; हिश्रौ १०,४,३९.  
 पादिनी- -नीनाम् लाश्रौ ९,  
 ६, ७; -नीभ्यः लाश्रौ ९,११,  
 ३; -न्यः लाश्रौ ९,१,१३.  
 पादू(द-ऊ)न<sup>०</sup>- -नम् आपध  
 १,२,१३<sup>०</sup>.  
 पादे-गृह्य पाग २,१,७२.  
 पादे(द-इ)एका- -का आपध  
 ११,४; हिशु ४,५; -काः वैश्रौ  
 १८, १६: ७७; हिपि १५: ५;  
 आपध; वौशु १०, २४; २०:  
 २४<sup>०</sup>; -काभिः वैश्रौ १८,१६:  
 ८१;८४; आपध; -काम् आपध  
 १९,५; वौशु १२: ८; १३: ५;  
 हिशु ६, २१; -क्रे वौशु ८:  
 १७xx.  
 पादो(द-उ)दक- -कम् वैगृ ३,  
 २२: १३.  
 पादो(द-उ)दगत- -तैः वैगृ १,  
 ५: ४.  
 पादो(द-उ)दृष्ट- -त्तानि

आमिगृ २,६,७: ३१.  
 पादो(द-ऊ)न- -नम् शंघ ३९४;  
 विश्व ५०,१२; हिध १,१, ४६<sup>०</sup>.  
 पादोन-फल-आगिन्-  
 -गिनौ कप्र १,६,३.  
 पादो(द-उ)पसंस्पर्शन- -नम्  
 विध ३२,५.  
 पादो(द-उ)पसंग्रहण- -णम्  
 विध ३०, ३२; गौध १, ५८;  
 ६,१.  
 पादो(द-उ)पहत- -तम् वौध  
 १,७,४.  
 पादो(द-ऊ)र्ध्व- -ध्वम् वेज्यो  
 १४.  
 १पाद्य, द्या<sup>०</sup>- पा ५, ४, २५;  
 पाग ५, ४, ३; -द्यम् शांश्रौ ४,  
 २१, ३; २५; द्राश्रौ १, २, १<sup>०</sup>;  
 आगृ; -द्याः आपगृ १३, ४<sup>०</sup>;  
 वौगृ १, २, १९; वौशु ९-१०:  
 २xx; -द्याभिः कागृ २४,१०;  
 वौशु १०: २५;३३; -द्याभ्याम्  
 काश्रौ ३, १, ७; -द्यायै<sup>०</sup> पागृ  
 १,३,१२; कागृ २४,६<sup>०</sup>; -द्येन  
 भागृ २,२३: ३; भागृ १, ९,  
 १३; जैगृ १,१९: ३३.  
 पाद्य-क- पा ५,४,३.  
 पाद्य-दान- -नम् वैगृ २,  
 १६: ८.  
 पाद्य-पात्रो(त्र-उ)दक- -वत्  
 विध २१,१७.  
 पाद्य-प्रतिग्रहण- -णः शांघ  
 ३,७,५<sup>०</sup>; -१णम् कौगृ ३,४,६<sup>०</sup>.  
 पाद्य-प्रथम- -मैः कागृ २४,  
 ५.

a) विप. > नाप. (मधीरादि- [तु. नागेशः]) । b) = पन्नेजनी- । c) परहृपम् (पावा ६,१, ९४) । d) सपा. पादू <> पादो इति पाभे. । e) पद्रे इति पाठः? यनि. शोधः (तु. वौशु १०:२४) । f) मलो. कस. । g) विप., नाप. (जल-, इष्टका- प्रमृ.) । h) पाभे. पृ १४९१ b ट. । i) पाभे. पृ १४९० a ट. । j) भाप., नाप. (मन्त्र-) । उप. भावाद्यर्थे प्र. । k) परस्परं पाभे. । l) विप. । चस. ।



पाद्या(द्य-आ)चमन- -नम्  
वैगृ ४, १२ : ६.

पाद्या(द्य-आ)चमन-गन्ध-  
पुल्प-धूप-दीपा( प-अ ) क्षता(त-  
आ)चमन- -नैः वैगृ ७, ६ : ५.

पाद्या(द्य-आ)चमनीय-मुख-  
वास- -सम् वैध ३, १०, ३.

पाद्या(द्य-आ)र्घ्य-मधुपर्क-  
-कैः वृदे ५, ७९.

पाद्या (द्य-अ)र्घ्या ( र्घ्य-आ )  
चमनीयो ( य-उ ) दक- -कानि  
शंघ २०४.

१पादु<sup>a</sup> - > १पादु(क>)का<sup>b</sup>-  
-कै वाध १२, ३४; शंघ.

पादुकिन्- -की आपध १,  
८, ३; हिध १, २, ९०.

२पादुक- पा ३, २, १५४.

पादु<sup>c</sup>- पाउ १, ८५.

पद्- √पद् द्र.

?पद् वाधूश्रौ ४, १०८ : २०.

पद्-, १पदक- √पद् द्र.

२पदक<sup>d</sup>- पा, पाग २, ४, ६३.

पद्-कर्मन्- प्रभृ. √पद् द्र.

पद्खल<sup>e</sup>- पा, पाग २, ४, ६९.

पद्-ता- प्रभृ. √पद् द्र.

पद्नु- पाउभो २, १, ७९.

पद्-न्यास-, पदिक-, पद्घोप- प्रभृ.

√पद् द्र.

१पद्म<sup>f</sup>- पाउ १, १४०; पाग २, ४,

३१; ५, २, १२७<sup>g</sup>; १३५; -अम्

आमिगृ २, ४, १० : ५; ११ : ६;

अप १८, १, १७; १९<sup>h</sup>, २, ४;

५; माशि ११, ३<sup>i</sup>; -अस्य

वैश्रौ ११, ८ : २; आमिगृ २, ४,

१० : ६; -आन् वाध २७, १२;

-आनि अप ६८, २, ४९; -<sup>j</sup>श्रौ

आपश्रौ १६, ३१, १; वैश्रौ १८,

२ : ५२; हिश्रौ ११, ८, ४; विध

९९, १२६; -श्रौ या १४, ३०;

-श्रैः अप ३१, ६, ५; ६८, २, ४९.

२प(अ>)द्या- पा ५, २, १२७;

-द्या कप्र १, १, ११<sup>k</sup>.

पद्म-कुमुदो(द-उ)त्पल- -लैः अप

१८, ३, १.

पद्म-खण्ड- -ण्डे विध ९९, १७.

पद्म-चारि(न् >)णी- -णी मागृ २,

१३, ६१<sup>l</sup>.

पद्म-तन्तु-निकाश- -शेन अप ५८<sup>m</sup>,

३, १०.

पद्म-धर- -०र विध ९८, ७५.

पद्म-धारा-धर- -०र विध ९८, ७६.

पद्म-नाभ<sup>n</sup>- पाग २, २; ३७<sup>o</sup>;

-०भ विध १, ५०; ९८, ७४;

-भम् आमिगृ २, ५, ७ : १०<sup>p</sup>;

वौगृ १, ११, ७; वैगृ ३, १३ :

५; वौध २, ५, २४<sup>q</sup>.

पद्म-निधि- -धिम् वृदे ६, ५५.

पद्म-निभ- -भम् अप २५, १, ९.

पद्म-निलय<sup>r</sup>- -यम् या १४, ३०.

पद्म-पत्र- -त्रेण आमिगृ २, ७, ७ :

१९; अप ३८, ३, १.

पद्मपत्र-प्र ( भा > ) भ- -भः

माशि १, १३; नाशि १, ४, १.

पद्मपत्रा(त्र-अ)क्ष<sup>s</sup>- -क्षः चव्यु

४ : १३.

पद्म-सुष्पा(ष्प-आ)कृति- -तिः अप

७०, ६, २.

पद्म-विल्व-पलाशो(श-उ)दुम्बर-

कुशोदक- -कानि शंघ ४१७.

पद्म-योनि<sup>m</sup>- -तिना अप ६८, १, १.

पद्मयोनि-मत्- -तम् अप ५२,

१, २.

पद्म-वर्ण-निभ- -भम् अप २१, ७, ४.

पद्म-वैदुर्थ-निका ( श > )शा- -शा

अप ७०<sup>r</sup>, ४, १.

पद्म-शङ्खे(ङ्ख-इ)न्दु-वज्रा (ज्र-अ)हि-

मत्स्य-ध्वज-नि(भ >)भा- -भा

अप ५८<sup>s</sup>, ३, ६०.

पद्म-संभव<sup>t</sup>- -वम् अप ७०, २, ५;

-त्रे विध १, १.

पद्मा(द्य-आ)कार<sup>u</sup>- -रम् अप २५,

१, १०.

पद्मा(द्य-आ)कृति- -तिः अप ७०,

६, ३.

पद्मा(द्य-अ)क्ष<sup>v</sup>- -क्षैः शंघ ४४

विध २३, २४; ४६, १७.

पद्मा(द्य-आभा >)भ- -भः अप ७०<sup>w</sup>,

२, १; -भम् अप २५, १, ३; ८.

प(अ >)द्या-वती<sup>x</sup>- पाग ६, ३,

११९<sup>y</sup>.

पद्मा(द्य-अ)ष्ट-शत- -तम् अप ३६,

२६, २.

पद्मि(न् >)नी- पा ५, २, १३५;

पावाग ४, २, ५१<sup>z</sup>.

पद्मिनी-खण्ड- पावा ४, २, ५१.

पद्मिन्यु(नी-उ)त्करण- -णेन अप

३६, ७, ८.

पद्मो(द्य-उ)दुम्बर-विल्व-पलाश-

-शानाम् वाध २०, २१.

१, २पद्य, द्या- प्रभृ. √पद् द्र.

पद्- पाउ २, १३.

पद्- पाउभो २, ३, १२७; -द्वे<sup>p</sup> वैश्रौ

a) वैप ३ द्र. । b) स्वार्थे प्र. । c) = १पादु- । d) व्यप. । व्यु. ? । e) तु. पाका. । f) वैप १ द्र. । g) तु. पागम. । h) = यम-विशेष- । i) = मातृकाऽन्यतमा- । j) = देवी-विशेष- । k) = विष्णु- । l) विप. । वस. । m) = २प्रहसन्- । वस. । n) = पद्म-बीज- । o) = नदी-विशेष- । p) = [साहचर्यात्] संख्या-विशेष- । व्यु. ? ।

१८,४३ : ७; २६,३३ : १२.

पद्वत्-; पद्वत्- ✓पद् द्र.

𑀧✓पन्<sup>०</sup> पाधा. भ्वा. आत्म.व्यवहारे स्तुतौ च, पनायते निघ  
३, १४; पनय > या शुप्रा ३,  
११२; पनायत या ९, १६६.पन्-> 𑀧पनि(ष्ठ>) छा- छा  
आपश्रौ १०, ३, २; भाश्रौ १०,  
१३, ३.पनस्<sup>०</sup>-> 𑀧✓पनस्य, पनस्यति  
निघ ३, १४; पनस्य अप ४८,  
१२५.𑀧पनाय्य<sup>०</sup>- -य्यम् आश्रौ ९, ११,  
१६; अत्र २०, १४३.𑀧पनिप्वत्<sup>०</sup>- -प्वत्म् आश्रौ ४,  
१०, ३; अप्रा ३, २, १७; ४, ५.𑀧पन्व<sup>०</sup>- -न्यम् ऽन्यम् शाश्रौ ९,  
१९, २; निस् ८, १ : ८; सात्र  
१, १२३; १२४; -न्ये शाश्रौ ९,  
१९, २.पनस्<sup>०</sup>- पाड ३, ११७.पनिष्प(द>)द्वा<sup>०</sup>- -द्वा अप्रा ३, १,  
७; ४, ५; शौच ४, ९६.✓पन्थ्, पन्थन्-, पन्था- ✓पथ् द्र.  
१पन्न- प्रन्त्. ✓पथ् द्र.

२पन्न- पाड ३, १०.

?पपयस्यम् अप्रा ३, ४, ११.

पपा, म्पास्-(>✓पप [म्पा] त्य पा.)  
पाग ३, १, २७.

पपिवत्- ✓पा(पाने) द्र.

पपी- पाड ३, १५९.

पपु- पाडवृ १, २२.

पप्रि- ✓पृ, पृ द्र.

पफक्<sup>०</sup>->पफक्-नरक्- पा, पाग २,

४, ६८.

पम्पा<sup>०</sup>- पाडवृ ३, २८; पा, पाग ४,  
२, ८२.

✓पय् पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ.

पयस्<sup>०</sup>- पाडमो २, १, ३२२; पाग ३,  
१, २७; ५, २, १३५; -यः आश्रौ  
२, १०, २११; ३, ११, ७<sup>५</sup>xx;  
शाश्रौ; काश्रौ २५, ५, २८<sup>१</sup>;  
आपश्रौ ४, १४, ४<sup>१</sup>;  
वौश्रौ ३,  
२०:१८<sup>१</sup>; माश्रौ १, ४, १, ५<sup>१</sup>;  
३, ९<sup>१</sup>; हिश्रौ ६, ४, १४<sup>१</sup>;  
द्राश्रौ २, २, ३४<sup>१</sup>; लाश्रौ १,  
६, ३०<sup>१</sup>; आपमं २, ९, १४<sup>१</sup>;  
पागृ १, ३, १४<sup>१</sup>; मागृ २, ११,  
१८<sup>१</sup>; हिगृ १, १३, ४<sup>१</sup>; या  
२, ५; ६, ३; ८, ५; ९, ४१<sup>१</sup>;  
१०, १६<sup>१</sup>; ११, ४३; ४५<sup>१</sup>;  
-यसः आश्रौ ४, ७, ४; शाश्रौ;  
माश्रौ १, ४, १, ५<sup>१</sup>; वाश्रौ १,  
१, २, ५<sup>१</sup>; या २, ५<sup>१</sup>; ४,  
१९<sup>१</sup>; ८, ५; -यसा आश्रौ २,  
३, १xx; शाश्रौ; माश्रौ १, १,  
३, ३२<sup>१</sup>; वाश्रौ १, २, २,  
२८<sup>१</sup>; या ९, ३९<sup>१</sup>; -यसाम्  
वौश्रौ २०, २ : ३xx; -यसि  
काश्रौ ४, ६, ४; ५, ६, ६; आपश्रौ  
६, २९, १०xx; वौश्रौ; -यसी  
काश्रौ २२, ८, २; आपश्रौ १५,  
९, १०; वौश्रौ ९, ९ : १९; २२;  
२५; माश्रौ ११, ९, १३; वैश्रौ  
१३, ११ : १५; हिश्रौ २४, ४, ४<sup>१</sup>;  
-यसे वौश्रौ ८, १२ : २८<sup>१</sup>;  
-यसोः शाश्रौ ५, १०, १०;  
-वासि 𑀧आश्रौ १, १०, ५; ५,६, २७; शाश्रौ; 𑀧या ११, २५;  
२८; ४२.पायस्<sup>०</sup>- -सः कौगृ ४, ३, १;  
शांठ; -सम् वैश्रौ १२, ४ :  
१६; २२ : ६; आगृ; -सस्य  
आगृ २, ३, ३; द्रागृ ३, ३, १८;  
-सात् द्रागृ ३, १, ३८; -सान्  
कप्र ३, १०, ७; -सेन पागृ ३,  
८, १६; वौपि; -सौ अप १,  
३४, ३; ४.पायस-कसर-गौड्या (डी-  
२आद्या>)घ<sup>१</sup>- -वैः वैगृ ४,  
१४ : १०.पायस-तिल-चूर्ण<sup>०</sup>- -र्णम्  
आमिगृ २, ४, ३ : १५.पायस-म(य>)यी- -यीम्  
अप ३६, ७, ३.पायस-शेष- -यम् वैगृ ३,  
१३ : ११.पायसा( स-अ)न्न- -न्नम्  
आमिगृ २, ४, ५ : २५.पायसा( स-अ)पूष-संयुत-  
-तैः अप ६८, ५, २१.पायसो( स-ओ)दन- -नेन  
आमिगृ २, ४, ८ : १४.पय-आहुति- -तिभिः आगृ २, ३, २,  
पय-उपसेचन<sup>०</sup>- -नम् आपघ २,  
७, ४.पयः-पश्वो(शु-ओ)पधि- -धीनाम्  
वृदे ६, ९४.पयः-पात्र- -त्रान् वौश्रौ १८, ४० :  
१५; -त्रैः वौश्रौ १८, ४० :  
२३<sup>१</sup>; २६.

पयः-पूर्ण- -र्णम् तैप्रा १७, ८.

a) अप्रा ३, २, १७ परान्ठः द्र. । b) वैप १ द्र. । c) = फल-विशेष- । व्यु. ? । d) व्यप. । व्यु. ? ।

e) = नदी-विशेष- । f) पामे. पृ १३३५ j द्र. । g) पामे. वैप १, १९०७ a द्र. । h) सकृत्

= साम-विशेष- । i) पामे. वैप १, १९०७ c द्र. । j) पामे. वैप १, १९०८ d द्र. । k) विप., नाप. ।

ताद्वितः ङ्ग प्र. । l) द्वस.&gt;घस. । गौडी- = सिता- । m) मलो. कस.&gt;पस. । n) विप. । वस. ।

पयः-प्रतिषेध- -धः मीसू ११, १, ५१.  
 पयः-प्रोक्ष<sup>a</sup>- -क्षम् वौश्रौ १०, २७ : २; -क्षे वौश्रौ १०, २७ : ९, २२, ६ : ८.  
 पयः-शेष- -पम् आपश्रौ १९, ८, १४; हिश्रौ २३, १, ४१.  
 पयसि(न् >)नी- पा ५, २, १३५.  
 पयस्-पति- -न्ते विध ९८, २२.  
 √पयस्य पा ३, १, २७.  
 ?पयस्य<sup>b</sup> कप्र २, ८, २५.  
 पयस्य, स्या<sup>c</sup>- पा ४, ३, १६०; -स्यः  
 द्राश्रौ १, २, १४; लाश्रौ १, २, ८;  
 जैगृ १, १९ : ३८; -स्यया शाश्रौ  
 ९, २८, १८; १४, ४०, २३;  
 काश्रौ १५, ६, ३५; हिश्रौ २३,  
 २, ५०; -स्ययोः माश्रौ १,  
 ७, ४, ७; -स्या आश्रौ ६, १४,  
 १९; १२, ८, ३३; शाश्रौ; -स्याम्  
 काश्रौ ९, १, १५; ११, २३;  
 आपश्रौ १२, ४, ६; ११; २५, ६;  
 १९, २५, १; ४; वौश्रौ; हिश्रौ  
 २२, ५, १६५; -स्यायाः काश्रौ  
 १५, ९, ५; १६, १, २८; १९, ७,  
 १७; आपश्रौ ११, ५, १२;  
 १९, २५, ७; हिश्रौ २२, ५, १९;  
 -स्यायाम् काश्रौ १५, ६, ३३;  
 आपश्रौ १९, २५, २; वौश्रौ १३,  
 ३४ : १; हिश्रौ २२, ५, १६;  
 द्राश्रौ २, २, ५१; लाश्रौ १, ६,  
 ४८; -स्यायै माश्रौ २, २, ५,  
 २८; वैश्रौ १४, ५ : ३; -स्ये  
 काश्रौ ५, ४, २१.  
 पयस्या-प्रचरण-काल- -ले

काश्रौ ५, ५, १६.  
 पयस्या( स्या-अ )र्थ- -र्थम्  
 आपश्रौ ११, २१, ७.  
 पयस्या-वर्जम् काश्रौ ९, १४, ३;  
 आपश्रौ १३, १, १२; १०, ७.  
 पयस्या-स्विष्टकृद्-इ (डा > )  
 ड<sup>e</sup>- -डम् काश्रौ १५, ७, २२.  
 ङपयस्-वत्- -वत् वौश्रौ १, १२ :  
 २४; २१ : २××; माश्रौ; -वते  
 वौश्रौ १८, ९ : १७; -वन्तः हिश्रौ  
 ६, ७, ८; हिगृ १, २९, १; कौसू ८९,  
 १२; ऋप्रा २, ४८; -ङ्वन्तम्  
 शाश्रौ ६, ७, १०; आपश्रौ १०,  
 २५, ४<sup>f</sup>; वौश्रौ ६, १५ : १<sup>f</sup>;  
 ७, ५ : ८<sup>f</sup>; १८, ९ : १७; माश्रौ  
 १०, १६, १६<sup>f</sup>; -वान् आश्रौ १,  
 १३, ४; शाश्रौ; या २, १३.  
 ङपयस्वती- -ती आश्रौ १, ९,  
 १; ४, १२, २<sup>g</sup>; शाश्रौ; निघ  
 १, ७<sup>h</sup>; या ५, २४<sup>g</sup>; -तीः  
 आपश्रौ ४, २, ३; ९××; वौश्रौ;  
 -तीम् आपश्रौ ११, ४, १४;  
 माश्रौ; -त्यः निघ १, १३<sup>h</sup>.  
 पयस्-वि(न् >)नी- नी अप १,  
 ४८, २; -नीम् अप १, ४८,  
 २; ५०, ८××; अशाः; -न्यः अप  
 २१, १, ४; १; वृदे ५, ९२; ८,  
 ७२; -न्याः पागृ ३, ९, ६; कागृ  
 ५९, ५; विध ८६, ४.  
 पयः-सुरा-ग्रह- -हाणाम् वैताश्रौ  
 ३०, ११.  
 पयो-गुड- -डान् वाश्रौ ३, ४, २, ४.  
 पयो-गोधूम-शालि- -लीनाम् अप  
 ७०, ४, ९.

पयो-ग्रह- -हाः आपश्रौ १९, २,  
 १३; शुभ्र २, ३७४; -हान् काश्रौ  
 १९, २, १४; २४; २८; आपश्रौ;  
 -हेभ्यः माश्रौ ५, २, ४, ८.  
 पयोग्रह-संमर्शन- -नम् काश्रौ  
 १९, २, ३१.  
 पयो-ग्रहण- -णम् काश्रौसं २५ : ६.  
 पयो-द<sup>1</sup>- -देषु अप ५९, १, १६.  
 पयो-दधि-पृषदाज्य- -ज्यानाम्  
 आमिगृ २, ७, ९ : ४; भागृ ३,  
 १८ : ६.  
 पयोदन<sup>2</sup>- -नम् वीगृ १, ८, २; जैगृ  
 २, ९ : २६.  
 पयो-देवता- > -त्य, त्या- -त्यम्  
 शुभ्र ४, ९९; -त्याम् शुभ्र १,  
 १८५<sup>1</sup>; -त्यानि शुभ्र २, ३६९.  
 पयो-दोष- -पात् मीसू ६, ५, ६.  
 पयो-धर<sup>1</sup>- -राः अप ५९, १, १७;  
 -रान् अप ५८<sup>1</sup>, ४, ८.  
 पयो-धर्म- -र्माः भाश्रौ ७, ६, ९.  
 पयो-धस- पाठ ४, २३०.  
 ?पयोधा निसू ९, ६ : २८.  
 पयो-निघन<sup>m</sup>- -नम् द्राश्रौ २, २,  
 ५१; लाश्रौ १, ६, ४८; ७, ३, ११.  
 पयो-भक्ष- -क्षः आमिगृ २, ४, ४ :  
 ६; -क्षम् शाश्रौ ४, १३, १.  
 पयो-भार्य<sup>2</sup>- -र्यः वाधूश्रौ २, १६ : ६.  
 पयो(यस्-अ)भाव- -वे वाश्रौ १,  
 ५, ३, ४.  
 पयो-मन्थ- -न्यम् आपश्रौ २२,  
 २६, १; हिश्रौ २३, ४, १७.  
 पयो-मिश्र- -श्रम् आमिगृ २, ४, ३ :  
 १५; -श्रस्य वौश्रौ २, १२ :  
 २९; ६, १ : २४; १५, २ : २१.

a) = प्रोक्षणप्रयोजनक-पयस्- । b) पाठः ? पयसा इति शोधः (तु. भाष्यम्) । c) विप, नाप. ।

d) स्यान्तम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ १९, २५, १) । e) इडा = इडामार्जानान्तकर्मन्- । f) पाभे.  
 वैप २, ३२खं. बहुरमध्यम् टि. द्र. । g) पाभे. वैप १, १९०९ गृ द्र. । h) = रात्रि- । i) = नदी- । j) = मेघ- ।  
 उस. । k) तुस. । शकन्वादिवं द्र. । l) = ऋच्- । m) = साम-विशेष- । वंस. । n) तुस. उप. < √शृ ।

पयो-मूल-फल- लैः अप ७०, २,  
१; शोध १८७.

पयोमूलफला(ल-अ)शन- नैः  
अप ७०, १, ११.

पयो-यन्नाग्वा(गु-आ)मिक्षा(झा-आ)  
हार<sup>१</sup>- राः शोध २८.

पयो-विकार- -रः मीसू ८, १, ४०;  
-रे वौष १, ६, ४७.

१पयो-व्रत- -तम् वौष १४, १७ :  
३; गौषि १, ७, ११.

२पयो-व्रत, ता<sup>b</sup>- -तः वौष २६, ५:  
२; विष ५०, ५०; गौष २४,  
६; -ता भाश्रौ १०, ९, ९.

पयोव्रत-ता- -ता नाथ २२, ११;  
वौष ३, १०, १२; गौष १९,  
१४.

पयो-होत्र<sup>c</sup>- -त्रम् वौष २४, ३० :  
१६.

पर, रा<sup>d</sup>- पाग १, १, २७; २, १, ५९;  
-०र विष ९८, ६१; -रः आश्रौ  
१, २, ९×४; १०, ९, ३१<sup>e</sup>;  
शाश्रौ; वाश्रौ ३, ४, ४, ११<sup>f</sup>;  
लाश्रौ ९, १०, १४<sup>g</sup>; वा १,  
१७<sup>h</sup>; ६, ३२; ७, १४; २९;  
३०<sup>i</sup>; १०, १०<sup>j</sup>; २६<sup>k</sup>; १४,  
१९<sup>l</sup>; पा १, १, ४७; ४, १०९;  
३, १, २; ८, ३, ४; पावा  
१, ४, ५६<sup>m</sup>; -रम् आश्रौ ५,  
१, ३; १०, ९, २; शाश्रौ;  
वैष ३, ७, १३<sup>n</sup>; वा २,  
३<sup>o</sup>; २४; ११, ७<sup>p</sup>; १४, ३;  
६; २९; पा १, ४, २; ८, १, २;  
-रम्-रम् आश्रौ १, ३, २;  
-रया वैताश्रौ २२, १४; २५,

११; ऋअ; -रयोः माश्रौ १,  
१, २, २; जैश्रौकाः शैशि  
२२<sup>q</sup>; -रस्मात् आपव २,  
२०, ४; हिष २, ५, ९३; गौष  
१८, १२; पा ७, १, १६;  
पावा ५, ३, २२; -रस्मिन् आपश्रौ  
१३, २२, ५<sup>r</sup>; वौश्रौ; पा १,  
१, ५७; ३, ३, १३८; ७, १, १६;  
-रस्मै शाश्रौ १८, २४, ९; काश्रौ;  
वा ३, ६; -रस्य शाश्रौ १३,  
२०, १२; १६, ९, १३<sup>s</sup>; आपश्रौ;  
पा १, १, ५४; ६, १, ११२; ३,  
८; ७, ३, २२; २७; ४, ८८; ८,  
२, ९२; पावा ४, २, १३८<sup>t</sup>;  
-रस्य-रस्य पावा ८, २, १;  
-रस्य- काश्रौ १६, ४, ३६;  
आपश्रौ १६, ९, ११; वौश्रौ;  
-स्याम् वु १४, ४; -रा निस्  
२, १३; २७; वौषि २, ९, १२;  
जैश्रु; अत्र ४, ३७<sup>u</sup>; -राः शाश्रौ  
१०, ६, ४; द्राश्रौ; -राणि आपश्रौ  
२१, १६, २; १२; नाश्रौ; निस्  
३, १३; ३; ९; वा ६, २६;  
-रात् काश्रु ४६; १७; -रान्  
आपश्रौ ८, १६, ७; २२, ११;  
वौश्रौप्रः -रान्-रान् वौश्रौ ९,  
६; ८; -राभिः द्राश्रु ३, ४, २४;  
ऋअ; -राभ्याम् काश्रौ १५;  
काश्रु ४० : १३; ऋअ; -रान्  
आपश्रौ २२, ४, २७<sup>v</sup>; वौश्रौ;  
अत्र १, २८<sup>w</sup>; -राम्-रान्  
कौष ४, १५; -रामः आश्रौ  
२, १९, २२; ५, २०, ६; वौश्रौ  
२, ८; २८; १७, ३६; १२; वा

११, १८; -रासु लाश्रौ ७, ११,  
४; ५; निस् ६, ३; १८; ऋअ  
४, ७; शैशि २८६; २८७; -रे  
शाश्रौ १२, २, २; काश्रौ; वा ११,  
१८; -रे-रे आमिगु २, ४, ६;  
२१<sup>x</sup>; -रेण काश्रौ २, १, ११; १७,  
२, ३; हिश्रौ; -रेस्यः आश्रौ २,  
६, २०; काश्रौ २०, ८, ५; आपव;  
-रेषाम् वैताश्रौ १७, ७; निस्  
६, १३; १५; ७, १२; ७; आपश्रु;  
-रेषु ऋश्रौ<sup>y</sup> ३, ५, ८×४; द्राश्रौ;  
-रैः ऋश्रौ ४, १ : १७; ७, ६ :  
२३; आमिगु; -रौ आपश्रौ ८,  
२२, १०; नाश्रौ ६, १, ४, २८;  
लाश्रौ.

पर-क- > पारक्य<sup>१</sup>- -क्यम् अप  
६८, २, २६; -क्ये अप ४२,  
१, ३<sup>m</sup>.

पारक्या (क्या-अ.) शुचि-  
भूमि- -मिषु शैष १९२.

परकीय- पाग ४, २, १३८;  
३, ६०.

पर-काय-प्रवेदिन्- -शी वैश्रु ५,  
८ : ४.

पर-कारण<sup>b</sup>- -णानि ऋप्रा १, १, १६.

पर-कार्य-द्रक्ष- -क्षे विष १९, २०.

१पर-काल- -ले अप ७१, ४, ५.

२पर-काल<sup>b</sup>- -लः शुप्रा ३, ४.

पर-कुल- पाग ४, ४, ९९; -लानि  
वा ४, ५.

पारकुलीन- पा ४, ४, ९९.

पर-कृत- -तस्य हिश्रौ १, ४, ५७<sup>n</sup>;  
जैश्रौ २० : ७; -तान् अप २०,  
७, ४; -तान् वौष २, ३, ६.

a) विष. । दस. > वस. । b) विष. । वस. । c) =होन-विशेष- । d) वैष १३. । e) पामे.  
वैष १, १९१० d द. । f) वु. पावा. । g) वृ १३९१ j द. । h) परे इति पाठः ? यनि. शोधः (वु. संस्कृती) ।  
i) परया इति पाठः ? यनि. शोधः । j) पाठः ? प्रकरणतः पराभ्याम् इति शोधः । k) पामे. वैष १, १९११ k द. ।  
l) =परकीय- । विष. । तस्येदनीयः पयः प्र. (पा ४, १, ८५) । m) नाप. (परलोच-संविन्द-पूर्व) ।

पर-कृति<sup>१</sup> - ति: आपश्चौ २४, १,  
३३१; हिथौ १, १, ११.  
परकृति-पुराकल्प- -ल्पम् मीसू  
६, ७, २६.  
पर-क्रम<sup>२</sup> - मम् ऋप्रा १४, ५५;  
-मे ऋप्रा १, २६; १८, ३६.  
परकम-स्वररेफोपध<sup>३</sup> - -धे ऋप्रा  
६, ४४.  
परकमो(म-उ)पधा- -धा ऋप्रा  
६, ११.  
पर-क्षेत्र- -त्रात् पावा ५, २, ९२;  
-त्रे विध ७१, ६१; वैध ३, २,  
१५; पा ५, २, ९२.  
परक्षेत्रो(त्र-उ)त्पन्न- -त्रा: शंघ  
२८८.  
पर-खातक- -के अप ४२, १, ४.  
पर-गर्हा- -र्हाम् आपध १, ७, २४;  
हिध १, २, ८१.  
पर-गामिनी- -नी वाध १३, ५२;  
१७, ८०.  
पर-गुण- -णम् ऋत ४, ४, २.  
पर-गृह- -हाणि या ४, ५; -हेषु  
विध २५, १०.  
पर-वातक- -कम् आज्यो ४, ९.  
पर-चक्र- -क्रस्य अप ७१, १०, २.  
परचक्र-भय- -यम् अप ५७,  
१, ८; -ये अप ३१, ४, ५.  
परचक्र-समुत्थ- -त्थम् अप ७१,  
६, ६.  
परचक्रा(क्र-आ)गम- -म: अप  
७०<sup>३</sup>, ४, ५; १२, २, ४; ५; ७१,  
८, ४; -मम् अप ७१, ५, ४; ६,  
३; -मे अप ३१, ८, १; अशां  
१७, २.  
परचक्रा(क्र-अ)भिमर्शन- -नम्

अप ७०<sup>३</sup>, २३, ३.  
परचक्रो (क्र-उ) पवात- -तान्  
विध ३, ६९.  
परचक्रो (क्र-उ)पसृष्ट- -ष्टस्य  
अप ३३, २, ३.  
पर-जनपद- -दात् माश्रौ ५, १, ५,  
६७; -त्रे माश्रौ ५, १, १, ३४<sup>१</sup>.  
पर-जला(ल-अ)पहारिन्- -रो शंघ  
३७८.  
पर-जाया- > पारजायिक<sup>४</sup>- -क:  
शंघ ३२८.  
पारजायिन्<sup>५</sup>- -थी विध ५, ४०.  
पर-तन्त्र-><sup>६</sup>न्त्र-व्यवेत- -तानाम्  
आपश्चौ २४, १२, ४.  
परतन्त्रा (न्त्र-आ) पत्ति- -त्ते:  
मीसू १२, १, ७.  
परतन्त्रो (न्त्र-उ)त्पत्ति<sup>७</sup>- -त्तय:  
काश्रौ ६, १०, २५; -त्ति: वागृ  
१, ६.  
पर-तर- -रम् शंघ १०६.  
पर-तल्प- -ल्पान् आपध १, २१, ९;  
हिध १, ६, ३९.  
परतल्प-गामिन्- -मी आपध  
२, १७, २१; हिध २, ५, ४९.  
पर-तस (:) जैश्रौका १४१; अप;  
पा ५, ३, २९<sup>६</sup>.  
पर-त्र अप २२, १०, ३; वैध २, १२,  
४; गौध २१, ५; भाशि ६५;  
पावाग ४, ३, ६०.  
पारत्रिक- पावा ४, ३, ६०.  
पर-त्व- -त्वम् आपध २, २७, ५;  
हिध २, ५, २२४; -त्वात् पावा  
४, २, ९२; ७, २, ११६; ४, ९.  
पर-द(त्त>)त्ता- -त्ताम् विध ३,  
८३.

?पर-द्वर<sup>८</sup>- (> १पारदारिक- पा.)  
पाग ७, ३, २०.  
पर-दान- -नानि आज्यो २, ६.  
पर-दार- पावाग ४, ४, १; -रम्  
आपध २, २६, १८; हिध २, ५,  
२१३; -रान् वैध ३, १, ७; -रे  
विध ५३, ८; गौध २२, ३१.  
२पारदारिक- पावा ४, ४, १;  
-का: अप ५०, ५, २.  
परदार-गमन- -नात् वैध ३,  
१, ७; -ने विध ५३, २.  
परदार-गामिन्- -मी शंघ ३७८.  
परदारा(र-अ)भिगमन- -नम्  
विध ३७, ९.  
पर-दुर्बल- > पारदौर्बल्य<sup>९</sup>- -ल्यम्  
मीसू ३, ३, १४; ८, ४, १७.  
पर-देश-गत- -तस्य वैगृ ५, ८:  
१५; -तै वैगृ ६, १४: १.  
पर-देश-पण्य- -ण्यात् विध ३, ३०.  
पर-देशा(श-अ)वासि- -सौ विध  
३, ४२.  
पर-द्रव्य- -व्यम् विध ५, १६४;  
४४, ४४.  
परद्रव्या(व्य-अ)पहारिन्- -री  
शंघ ३७७: २२.  
पर-द्वय- -यम् भाशि १०९.  
पर-निपान- -नेषु विध ६४, १;  
८४, ३.  
पर-निर्हास-कुत्व- -त्वेषु पावा १,  
१, ५८.  
पर-निहित- -तम् विध ३, ६४.  
पर-तप- पा ३, २, ३९; -प: अप  
४३, ५, १४.  
पर-पक्व- -क्वम् वैध २, १५, १०.  
पर-पक्ष- -क्षे शंघ २४६; वैध ३, ९, १.

a) = (परकृति-प्रतिपादक-) अर्थवाद-विशेष- । b) उप. = द्विरक्ति- । c) द्वस. उप. द्वस. > वस. ।

d) उक् प्र. उसं. (पावा ४, ४, १) । e) गिति: प्र. उसं. इति: d टि. विशेष: । f) विप. । वस. । g) पाध.  
अतसुच् प्र. । h) तु. BPG. । अर्थ: ? । i) इयलि प्र. उभयपदवृद्धि: उसं. (पा ७, ३, २०) ।

पर-रेतस्- -तसः आपध २, १३,  
६; वौध २, २, ३५; हिघ २,  
३, ६.

पर-लोक- पाग ७, ३, २०; पावाग  
४, ३, ६०<sup>५</sup>; -कम् वैगृ ७, १:  
२; विघ २०, २८; -के विघ  
३०, ३९; ९१, ४.

पारलौकिक- पा ७, ३, २०;

पावा ४, ३, ६०; -कम् वैगृ ५,  
१ : ५; विघ ९३, १.

परलोक-सं(स्था>)स्थ<sup>६</sup>- -स्थान्  
अप ७२, २, १.

पर-लोप- -पः पावा ५, २, ९२.

पर-वचन- -नम् पावा २, २, ३५; ३,  
१, २; -नात् पावा १, १, ४६;  
६, ४, ४९; -ने पावा १, ४, १.

पर-वत् पा, पावा २, ४, २६.

पर-वर्जम् शौच २, ७०; ३, २५.

पर-वाक्य-श्रवण- -णात् आपधौ  
८, १३, ७; २४, ३, ५१.

पर-वारि- -रिणा शंघ १००.

पर-विज्ञान- -नात् पावा ३, १, १.

पर-विषय<sup>७</sup>- -यम् अप ६८, ३, १३;  
शंघ २५३.

परविषय-भेद- -दः शंघ २५१.

पर-वृत्ति-घ्न- -घ्नः विघ ४५, ३०.

पर-वेष्मन्- -श्म वैघ ३, ७, ४.

पर-व्यवहित-वचन- -नम् पावा १,  
४, ८०.

पर-शव- -ने वाघ ४, ३२.

परशवो(व-उ)पस्पशन- -ने वौघ  
१, ५, ११८.

पर-शाक्व(र>)रा<sup>८</sup>- -रा अत्र ११,  
११<sup>९</sup>; १३, १<sup>१०</sup>; १९, ५७.

पर-शाखा(खा-आ)श्रय- -यम् कप्र  
१, ३, २.

पर-शास्त्र- -खेग वौश्रौ २९, ८ : २३.

परशास्त्र-कुतूहल<sup>९</sup>- -लः काशु  
७, ६.

पर-संस्थान, ना- -नः शौच २,  
१३; ३१; ४०; -नाम् शुप्रा ४,  
१०.

पर-संस्थित- -त्ते माशि १०, ७;  
१३, १०.

पर-संदीक्षित-त्व- -त्वात् कौसू  
१३९, १९.

पर-सवर्ण- -र्णः पा ८, ४, ५८;  
-णम् माशि ९, ७; नाशि २,  
४, ४.

परसवर्ण-त्व- -त्वम् पावा ८,  
२, ६.

पर-सामर्थ्य- -व्यात् मीसू १०, ८, ७.

पर-सूत्र-प्रकार- -रेण जैश्रौका ३१.

पर-स्त्री- पाग ४, १, १०४; १२६;  
७, ३, २०; -स्त्रियम् शंघ ४३८;  
वैघ २, ११, ४; ३, २, ९; -स्त्रीम्  
अप ६८, २, २८.

परस्त्र- पा ४, १, १०४.

परस्त्रैण्य- पा ४, १, १२६;  
७, ३, २०.

परस्त्री-नामन- -ने शंघ ३९४.

परस्त्री-संभाषण- -णम् शंघ १२.

परस्मै-पद- -दम् पा १, ३, ७८;  
४, ९९; ३, १, ९०; पावा १, ४,  
१; ३, १, १५; -दस्य पावा १, ३,  
१२; -दानाम् पा ३, ४, ८२; पावा  
१, ३, १०; -देषु पा २, ४, ७७;  
३, १, ५५; ४, १०३; ७, २, १;  
४०; ५८; ७२; ३, ७६.

परस्मैपद-ग्रहण- -णम् पावा १,  
४, ९९<sup>३</sup>.

परस्मैपद-प्रतिषेध- -धात् पावा

१, ३, ७९.

परस्मैपद-प्रतिषेधा(घ-अ)र्थ-  
-र्थम् पावा १, ३, १२.

परस्मैपद-वचन- -नम् पावा १,  
३, ८८.

परस्मैपद-संज्ञा- -ज्ञाम् पावा  
१, ४, १.

परस्मैपदा(द-आ)त्मनेपद-  
ग्रहण- -णम् पावा ३, ४, २.

परस्मैपदा(द-आ)श्रय-त्व-  
-त्वात् पावा १, ३, ६०.

परस्य-कुल- (> पारस्यकुलीन-  
पा.) पाग ४, ४, ९९.

पर-स्व-त्व- -त्वेन मीसू ४, २, २९.

पर-स्वर- -रम् तैप्रा २१, २.

पर-स्वा(स्व-अ)पहरण- -णम् विघ  
३७, ८.

पर-होम- -मः अप १८, ७, १.

परा(र-आ)काङ्क्षा- -ङ्क्षाम् मीसू  
२, १, ३.

परा( र-आ)कृति- -तिः अप ३३,  
६, ६.

परा(र-आ)नामन- -ने आमिण्य २,  
७, ४ : ३.

परा( र-अ)ग्नि- -ग्निषु निसू ५,  
१३ : १७; १९.

परा( र-अ)ङ्ग- -ङ्गम् नाशि २, २,  
१३; -ङ्गस्य वौपि ३, ७, ३<sup>६</sup>;  
शैशि १९०; याशि २, २४.

पराङ्ग-कर्म-क<sup>६</sup>- -कात् पावा १,  
३, २०<sup>६</sup>.

पराङ्ग-भूत- -तेषु माश्रौ २, २,  
५, १.

पराङ्ग-वत् पा २, १, २.

पराङ्गवद्-भाव- -ने पावा  
२, १, २<sup>३</sup>.

a) तु. पाका. पासि. ।

b) विप. । वल. ।

c) उप. = देश- ।

d) परा-शा<sup>१०</sup> इति पाठः ? यनि.

शोधः ।

e) सक्त्वं क्वरपरा इति पाठः ? यनि. शोधः ।

f) अप<sup>११</sup> इति B. ।

g) तु. पासि. ।

परारणा (ङ-आ)दि- -दौ नाशि २,२,१२.	परार्थ-त्व- -त्वात् काश्रौ १, ६,६; १०; १५; मीसू.	परा(र-अ)शुचि- -चौ विध ६०. १३.
परा(र-अ)तिजाग(त>)ता <sup>१</sup> - -ता अत्र ११,१; २; १३,१.	परार्थो(र्थ-उ)त्वक्ति <sup>१</sup> - -त्तेः काश्रौ ४,३,२३.	परा(र-अ)श्रित- -तौ पाशि ५. परे-द्यौ <sup>१</sup> - -द्यवि पा, पावा ५, ३, २२.
परा(र-आ)दि- -दि ऋत २,३,६; -दिः पा ६,२,१९९; पावा १, २,३७; -दिना काश्रौ १,३,९; -दौ पावा १, १, ४७; ५१; ६, १, ७०××.	१परा(र-अ)र्ध <sup>०</sup> - -र्धः शुभ्रा ६, २६१; -र्धम् अत्र ७, १०६; -र्धाय वाश्रौ ३, ४, २, ११; वाधूश्रौ ३, ८३: १८; -र्धे आपश्रौ १६, ३१, ११; वौश्रौ १८, ४२: २०; ४३: ७; २६, ३३: १२; वैश्रौ १८, २०: ५२१; हिश्रौ ११, ८, ४१.	परो(र-उ)क्त, क्ता- -क्तम् कप्र १, ३,३; -क्ता-कप्र १,३,१. परो(र-उ)दात्त <sup>१</sup> - -त्तः कौशि २७. परो(र-उ)पदेश- -शे पाप्रवा ५, १; ४.
परादि-त्व- -त्वात् पावा ६, १, ९; ८,३,७९.	२परा(र-अ)र्धे->०र्ध्ये, ०र्ध्या <sup>१</sup> - पा ४, ३, ५; -०र्ध्यम् आपश्रौ ५, २७,४; द्राश्रौ ९,३,२३; लाश्रौ ३,७,८ <sup>६</sup> ; निसू ९,८: ३४; गोश्रु १, ९, १०; -०र्ध्या माश्रौ १,२, १३; निसू १, ५: ३ <sup>१</sup> ; १६; -०र्ध्याः द्राश्रौ ११,३,१८; लाश्रौ ४,३,१८.	परो(र-उ)पवात् <sup>१</sup> - -सः आपध १, २,१७; हिध १, १, ५०. ?परः <sup>१</sup> काश्रौ २५,११,२१.
परा(रा-२आ)द्य- -द्यः अत्र २,१७.	३परा(र-अ)र्धे->र्धा <sup>१</sup> - -र्धाः वाश्रौ १,५,४,३९; ४०.	परक- >परकीय- प्रभृ. पर- द्र. ?परंगतिविलीक्रे अत्र ४८,१२४.
परा(र-अ)धिकार- -रात् काश्रौ २, ६,२७; मीसू ३,८,२२.	परा(र-अ)वर-रूप- -पेण शुभ्र १, १७१.	पर-चक्र- ,परम- प्रभृ. पर- द्र. ?परमधनम् <sup>१</sup> माश्रौ २, ५, ४, २४.
परा(र-अ)धीना ( न-आ)हार-> ०रिन्- -री वैध ३,१५,११ <sup>७</sup> .	परा(र-अ)वरां(र-अ)र्धे->०र्ध्ये- -०र्ध्याः ऋप्रा १५,२७; १८,५८.	परम-पुरुष- प्रभृ. पर- द्र. १परशु <sup>१</sup> - पाग ४,१,१००; १०४. १पारशव <sup>०</sup> - पा ४, १, १०४; -वः वाध १८, ९; १०; वौध १, ९, ३; २, २, ३०; वैध ३, १३,१.
परा(र-अ)ननुव्यक्त-त्र(क्त्र>) क्त्रा <sup>०</sup> - -क्त्रा शंघ ७८.	परा(र-अ)वरां(र-अ)र्धे->०र्ध्ये- -०र्ध्याः ऋप्रा १५,२७; १८,५८.	पारशव-यवन-करण-शुद्ध- -द्धान् गौध ४,२१. पारशवायन- पा ४,१, १००. ?पारशव्यय <sup>१</sup> - -ये शांश्रौ १६, ११,२०.
परा(र-अ)न्न- -न्नात् शंघ ४६१.	परा(र-अ)शिष्- -शिषः कौसू ६०,१२.	२परशु <sup>१</sup> - पाठ १, ३३; पाग ५, २, ९७ <sup>१</sup> ; -शुः वौश्रौ ७, १०: १;
परा(र-अ)न्न-पान- -नम् विध ४३, ३७.		
परा(र-अ)पर-पर- -रम् अत्र २३, १४,५.		
परा(र-अ)भिमृष्ट- -ष्टः शांघ ६, १,१०.		
परा(र-अ)र्थे- -र्थानि शांश्रौ १३, १४, ४; आपश्रौ २१, २, २; हिश्रौ १,१, ४३; १६, १, २३; मीसू १२, ४, ३२; -र्थे मीसू ९,२,४४ <sup>४</sup> ; -र्थेषु काश्रौ १२, १,१४.		

a) विप. 1 वस. 1 b) ष्हारः इति C. 1 c) अननुव्यक्त- = अप्रकाशित- 1 d) ०र्धेन इति प्रयासं. ? 1

e) वैप १ द्र. 1 f) = ३परार्धा- 1 तत्रभवतीयः यत् प्र. 1 g) = अति-विप्रकृष्ट- 1 h) सप्र. ऋप्रा १६, ८०-  
उत्तमा इति पाभे. 1 i) विप. ([अर्थिकाधिकान्] रात्रि-) 1 वस. 1 <परा०र्धे- इति MW. 1 j) पाप्र. पर- + पृथवि  
प्र. इति 1 k) परसमीपे वासः, परलोकार्थ उपवासो वेति भाष्यम् 1 l) पाठः ? परा (कुण्डे) इति शोधः (तु. सपा. शौ  
७, १०५, १) 1 m) पाठः ? तैत्र्या ४, २०, २ अनु परम्, अघरम् इति शोधः (तु. मै ४, ९, १२ पुरम्, अघरम् इति पाभे.) 1  
n) व्यप. 1 व्यु. ? 1 o) जाति-विशेष- 1 p) पाठः (तु. C.) ? पारशव्य- > -व्ये इति शोधः (तु. MW.,  
ऋप्रा २, ८, ६ पारशव्य- इति) 1 q) वैप १, १९१४ 1 द्र. 1 r) पशु- टि. द्र. 1

आपमं; याशि १, ४५<sup>a</sup>; -शुना  
काश्रौ ६, १, १२; आपश्रौ;  
-शुम् हिश्रौ ४, १, १०; आमिष्ट;  
-शोः पावा १, ४, २३.  
परशव्य-> २पारशव- पा ४, ३,  
१६८.  
परशु-च्छेद<sup>b</sup>- -दः नाशि २, १२.  
परशु-पर्ण<sup>c</sup>- -र्णान् कौसू ३०, १४.  
परशु-पलाश<sup>d</sup>- -शेन कौसू ४७,  
२५.  
परशु-फाण्ट<sup>e</sup>- -ण्टम् कौसू ३६,  
२७.  
परशु-ल-, परशु-वत्- पा ५, २,  
९७.  
परश्वध<sup>f</sup>-> पारश्वधिक- पा ४, ४,  
५८.  
परसू<sup>g</sup>- -रः आश्रौ ३, ८, १; शाश्रौ  
१२, २६, १९; आपश्रौ; -रःऽ-रः  
अप्रा ३, ३, ५.  
पर-उणिह<sup>h</sup>- -णिक् उनिस् १:  
१८; ४: १३; १५.  
पर-सुह(प>)पा<sup>i</sup>- -वे शाश्रौ १७,  
१, १६.  
पर-शत, ता<sup>j</sup>- पाग २, २, ३१<sup>j</sup>;  
पावा २, १, ३९<sup>k</sup>; -तम् वौश्रौ  
१२, १६: ३; १५, १५: ८; ३८: ६;  
वाश्रौ ३, २, ५, ५५; -ताः आपश्रौ  
१८, १९, १०; हिश्रौ १३, ६, ३५;  
-तान् आपश्रौ १८, १९, १;  
-तानि आपश्रौ ८, ६, १३;  
भाश्रौ ८, ७, ९; माश्रौ १, ७, ४,  
५; वाश्रौ १, ७, २, २०.  
पर-शत(त-ऋ)र्ण-गाथ<sup>l</sup>- -धन्

शाश्रौ १५, २७, १.  
परसू-त्तर-> परस्तरम्<sup>m</sup> माश्रौ ३,  
४, २.  
परस्तराम्<sup>n</sup> आपश्रौ ९, १, १८;  
वौश्रौ २९, १०: ९; भाश्रौ ९,  
२, १; वैश्रौ २०, २: १०; हिश्रौ  
१५, १, १९.  
परसू-त्तात्<sup>o</sup> आश्रौ ३, १०, ३१<sup>pm</sup>;  
काश्रौ ३, २, ८xx; २५, ९,  
१५<sup>qm</sup>; आपश्रौ; नाश्रौ ३, ५,  
१४<sup>qm</sup>; पा ५, ३, २९.  
परसू-पर- पावा ८, १, १२; -रः अप  
५१, ५, २; वैशि ७८; -रम्  
वैश्रौ ८, ७: १२; अप; -रेण अप  
६१, १, १९.  
परस्पर-निर्वांसु- -सवः अप  
६१, १, २३.  
परस्पर-बलो (ल-उ)त्तर- -राः  
अप ५८<sup>r</sup>, १, ८.  
परस्पर-व्यपेक्षा- -क्षाम् पावा २,  
१, १.  
परस्परो(र-उ)पपद- -दात् पावा  
१, ३, १६.  
पर-सहस्र, च्चा<sup>s</sup>- पाग २, २, ३१<sup>j</sup>;  
पावा २, १, ३९<sup>k</sup>; -त्तम् आपश्रौ  
१४, ४, ४; वौश्रौ १७, १०: ९;  
वैश्रौ १७, ५: १; सु २८, ३;  
-त्ताः आश्रौ ९, ११, २२;  
आपश्रौ १८, १९, १०; हिश्रौ  
१३, ६, ३५; -त्तानि आपश्रौ ८,  
६, १३; भाश्रौ ८, ७, ९; नाश्रौ  
१, ७, ४, ५; हिश्रौ ५, २,  
४३; -त्तान् आपश्रौ १८,

१९, १.  
पर-सामन्- -मसु आपश्रौ २१,  
२१, ३; हिश्रौ १६, ७, ३; -मानः  
वौश्रौ १४, १३: ५; १६, १४:  
१२xx; -न्नः आपश्रौ २१,  
१५, १४; वौश्रौ १६, १७: ९;  
२६, १६: ११; -न्नाम् वौश्रौ  
१४, १३: ४; १६, १७: ४; २६,  
८: ७.  
परो(रसू-ख)क्ष, क्षा<sup>t</sup>- -क्षः वृदे ७,  
९; ८, ५२; -क्षम् आपश्रौ १०,  
२०, ८; ९; वौश्रौ; -क्षस्य लुच् २,  
१३: ३; ४xx; -क्षाः आपश्रौ १,  
३, १५; -क्षाणि लुच् २, १२:  
३; १०xx; लाश्रौ १०, २, ३;  
-क्षाय निच् ८, ७: २७;  
-क्षायाम्<sup>u</sup> शौच ४, ८४; पावा  
१, २, १८<sup>v</sup>; -क्षे लुच् २, ६:  
३२; पा ३, २, ११५; पावा  
३, २, १११; ११५; -क्षेण  
वाचूश्रौ ४, १५: ८; १९<sup>w</sup>:  
१७; २२: १०; या ९, २०<sup>x</sup>;  
-क्षेपु लुच् २, १२: २४; -क्षैः  
वृदे ५, २.  
परोक्ष-कृत, ता- -ताः या ७, १<sup>y</sup>;  
३; -त्तानि या ७, २.  
परोक्ष-कृति- -तिः लुच् ३,  
१: ८.  
परोक्ष-नात-प्रेत- -त्तस्य आमिष्ट  
३, ९, २: १०.  
परोक्ष-देव<sup>z</sup>- -वाः विध १९,  
२०; २३.  
परोक्ष-वृष्ट<sup>aa</sup>- -ष्टः आश्रौ ८, ४,

a) = हस्त-दोष- । b) = परशु-पलाश- (तु. संत्कर्तुः टि.) । c) उप. = कुठारमुख- (तु. संत्कर्तुः टि.) ।  
d) तसपरशुकथितकारणमिति कृत्वा कस. । e) व्यप. । व्यु. ? । f) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र. ।  
g) = छन्दो-विशेष- । h) विप. । वस. । i) वैप १ द्र. । j) तु. पागम. । k) तु. पाका. । l) विप. ।  
वस. > दस. (तु. भाष्यम्) । m) पामे. वैप २, ३खं. पराचैः तत्रा ३, ७, ३, ६ टि. द्र. । n) परोक्षभावे  
तदति च वृतिः । o) = लिट्-सकार- । p) कस. । q) = एकाह-विशेष- । वस. ।



२३; आपश्चौ २२, १, १३<sup>a</sup>; क्षुस्  
२, १० : ९; -छस्य शांश्रौ १०,  
८, २१; -छानि निसू ६, ५ : २१<sup>b</sup>;  
-छे शांश्रौ १२, ७, ४; ८; हिश्रौ  
१७, १, १५<sup>a</sup>; निसू ७, ४ : २७;  
-छौ हिश्रौ १७, २, ४.

परोक्षपृष्ठो (छ-उ)पाङ्क्यपृष्ठ-  
-छयोः निसू ४, ४ : १२<sup>c</sup>.

परोक्ष-प्राङ्क्य-पृष्ठ<sup>d</sup> - छः क्षुस्  
२, १३ : ७; १०.

परोक्ष-प्रिय<sup>e</sup> - याः वाधूश्रौ ४,  
१५ : ८; १९<sup>f</sup> : १७; २२ :  
१०.

परोक्ष-प्रेत<sup>f</sup> - तस्य वौपि २, ६,  
१; १०; ११.

परोक्ष-वक् ऋञ्च २, १०, २८;  
वृदे ७, ३१.

परोक्ष-वार्त्त<sup>g</sup> - श्रौ आश्रौ २,  
१८, १५.

परोक्ष-वैश्वदेव<sup>h</sup> - वम् वृदे ५,  
४४.

परोक्षा(क्ष-आ)पक्व्य-पृष्ठ<sup>d</sup> - छः  
क्षुस् २, १३ : १; ४.

परोक्षा-त्रत - तम् वौश्रौ १८,  
२६ : १६<sup>f</sup>.

परोक्षी/कृ > परोक्षी-कृत्य  
निसू ३, ११ : ७.

परोक्षी-चिकीर्षत् - र्धन् निसू  
३, ४ : ३०, ३४.

परोक्षी-चिकीर्षा - र्पा निसू  
२, ७ : ६,

परोक्षी/भू > परोक्षी-भाव-  
-वः निसू ३, ११ : १०; १४.

परोक्षो(क्ष-उ)क्त - क्ताः वृदे ४,  
३२.

परोक्षो(क्ष-उ)पस्थान - नम्  
वौश्रौ २४, ३० : १९.

परोक्षो(क्ष-उ)पहत - तानाम्  
वौध १, ६, २२.

परोक्षो(क्ष-उ)पाङ्क्य-पृष्ठ<sup>d</sup> - छः  
क्षुस् २, १३ : १३; १६.

परो-गव्यूति<sup>h</sup> - त्ति आपमं २, १७,  
१३; -तिम् हिश्रौ २, ३, ५०;  
५, ५, २०; हिश्रु २, ९, ५; -तौ  
आपश्चौ ३, ४, ८.

परो-गोष्ठ<sup>h</sup> - छम् वाश्रौ १, ६, ७,  
३५; २, १, ४, २७; माश्रौ; -छे  
आपश्चौ ३, ४, ८; माश्रौ ८, २२, ५;  
हिश्रौ ५, ५, २३; ९, ५, ४८; भाग  
२, १० : ३.

परो-द्वि-व्याया (म >) मा<sup>i</sup> - मे  
शांश्रौ १७, २, ४.

परो-रजस्<sup>j</sup> - ऋजाः आपश्चौ १०,  
२८, ५; माश्रौ १२, १, १४;  
हिश्रौ १७, ६, ४४; जैश्रौ ३ :  
२४.

परो(रस्-अ)वर्<sup>k</sup> - रः वौश्रौ २७,  
४ : २३; -रम् शांश्रौ १६,  
९, ७<sup>l</sup>.

पारोवर्य<sup>l</sup> - > र्थ-विद्-  
-वित्सु या १, १६; १३, १२.

परोवरीण - पा ५, २, १०.

परो-वरीयस्<sup>m</sup> - यान् वैश्रु १, १ :  
१८.

परोवरीयसी - सी वैश्रौ १, १ :  
१९.

† १ परस्-पा<sup>n</sup> - पाः<sup>1</sup> आपश्चौ ६, १६,  
१२; भाश्रौ ६, २, ३.

२ परस्पा<sup>m</sup> - पायाः<sup>n</sup> आपश्चौ १५,  
१४, १<sup>2</sup>; वौश्रौ ९, १४ : १;  
३×४; भाश्रौ; -पायै<sup>n</sup> आपश्चौ  
१५, १४, १; वौश्रौ ९, १४; ६;  
भाश्रौ ११, १३, १६; माश्रौ ४,  
४, १३; वैश्रौ १३, १६ : ५.

पर-संस्थान - प्रम्. पर - द्र.

† ? परस्पी - स्पी<sup>o</sup> आपमं २, २, १०;  
वौश्रु २, ५, १४; जैश्रु १, १२ : ४७.

† परस्वत्<sup>h</sup> - स्वति वौश्रौ २, ५ : ५.

परा<sup>p</sup> या १, ३; ऋप्रा १५, १७; श्रुप्रा  
६, २४; पाग १, ४, ५८.

१ पराक<sup>1</sup> - पाउभो २, २, १४; -कः  
शांश्रौ<sup>q</sup> १६, २२, ७; ९; काश्रौ  
२३, २, १०<sup>q</sup>; वाध २४, २<sup>r</sup>; शंध  
४३२<sup>r</sup>; वौध<sup>r</sup> २, १, ६३-६५; ४,  
५, १५; विध<sup>r</sup> ४६, १८; ५१, ५८;  
सुध ६४<sup>r</sup>; -कम्<sup>r</sup> वाधूश्रौ ३,  
१९ : २१; वौश्रु ३, ३ : २८; वाध  
२३, ४३; विध ३७, ३५; -केण<sup>p</sup>  
आपश्चौ २२, १८, १०; हिश्रौ  
१७, ७, ५.

पराक-च्छन्दोम<sup>s</sup> - > भ-पराक-  
-कौ आश्रौ १०, २, १३.

२ पराक - परा(रा/अ)च्, च्च. द्र.

a) सप्र. ष्टः <> ष्टे इति पाभे. ।

b) विप. ।

c) ष्पाङ्क्य इति पाठः? यनि. शोधः ( तु.

संस्कृतः टि. ) । d) = पडह- । कस. > वस. ।

e) विप. । वस. ।

f) विप. । संस. ।

g) ष्पाङ्क्य इति पाठः? यनि. शोधः ( तु.

इत्यपि संस्कृतः टि. । h) वैप १ द्र. ।

i) विप. । वस. > समाहारे द्विस. ।

j) वैप २, ३ खं. द्र. ।

k) विप. । सुप्सुपीयः समासः ।

l) विप. । वैप १ द्र. ।

m) भाप. (परिपालन-) । व्यु. ? ( तु. वैप १ परस्प- इत्यत्र

टि., तस्यैवैतत् स्त्री. -रूपान्तरं द्र. ) ।

n) पाभे. वैप १, १९१६ j द्र. ।

o) पाभे. वैप २, ३ खं. परस्वी मंत्रा

१, ६; २८ टि. द्र. ।

p) अव्य. । व्यु. ? ।

q) = त्रिरात्र-विशेष. ।

r) = कृच्छ्र-विशेष. ।

s) वरा<sup>o</sup> इति

पाठः? यनि. शोधः ( तु. सप्र. वौध ४, ५, १५ ) ।

t) मलो. कस. ।

पराकदाल<sup>१</sup> - सः वृदे ७, ११८.  
 पराकाङ्क्षा - प्रसृ. पर- द्र.  
 परा/कम्<sup>२</sup>, णिपराक्रमध्वम् शांश्रौ  
 ४, १०, १; २; आपश्रौ.  
 परा-क्रम- -मे वौगृ ३, ३, २२.  
 परा-क्रम्य शांश्रौ ५, १६, ४<sup>३</sup>; निच्  
 ७, ८: २४.  
 परा-क्रान्त- -न्ते वा ५, ९.  
 परा/ख्या > परा-ख्याय वौश्रौ ३,  
 १३: ७xx; वाघुश्रौ.  
 परा/गम्, पराजगमुः हिश्रौ १, ३,  
 १८<sup>४</sup>.  
 परा-गत- -णितम् आपश्रौ १३, १४,  
 ४; १९, ३, ७; वौश्रौ; -णितः  
 कौसू ८६, २; ८८, १७; -तात्  
 वा ७, २६; ११, ४८.  
 परागमन- पर- द्र.  
 परा/गा, परागात् आमिचृ १, ५, १:  
 ७<sup>५</sup>; परागाः आश्रौ ६, ११, ११<sup>६</sup>  
 पराग्नि- प्रसृ. पर- द्र.  
 परा(रा/अ)च्, ञच् > २परा  
 (रा-अ)क् - णिके आपमं २,  
 २०, २८; आगृ २, ४, १३;  
 आमिचृ; वा ५, ९<sup>७</sup>.  
 परा(रा-अ)च्, ञच् - नाक्, ग् काश्रौ  
 ७, २, ३३; ८, ३, २८; १२, २,  
 २२; निच्: -राक्षु काश्रौ २५,  
 १३, ३१; -राग्निः काश्रौ  
 १७, ६, ७; -राह् आश्रौ ५,  
 ९, १; शांश्रौ १०, १३, २६;  
 आपश्रौ; -राह्-राह्नाश्रौ ६, १,  
 ५, १६; -णिराचः वौश्रौ १६, ९: ७;  
 वाघुश्रौ २, ९: २; कौसू ४९,  
 ६; -राचा आपश्रौ २०, २४, १०;

जैश्रौ ११: १२; द्राश्रौ २, १, ३;  
 आमिचृ; -राचि कौसू ८९, १०<sup>८</sup>; -  
 -राञ्चः शांश्रौ १०, १५, २;  
 वौश्रौ; -राञ्चम् वौश्रौ ४, ४:  
 १२; वैश्रौ ७, १: १०; वाघुश्रौ;  
 -राञ्चा वैगृ ३, १०: ८; -राञ्चि  
 शांश्रौ १४, १०, १९; वौश्रौ  
 १७, ३८: ३.  
 पराची- -ची आपश्रौ २४,  
 १४, १८; वौश्रौ १४, २४: २०;  
 वाघुश्रौ; वा ९, ३०; -चीः आश्रौ  
 ८, १३, ६; शांश्रौ १४, ४०,  
 १९; १८, १, २०; काश्रौ; सागृ  
 २, ३०: १५<sup>९</sup>; हिमि १५: ७;  
 -चीभिः शांश्रौ १३, ११, २;  
 वौश्रौ १४, ५: ४६; -चीम्  
 आपश्रौ १, ७, १३; २४, १४, १६;  
 हिश्रौ २१, २, ५६; वौगृ १, ७,  
 २५; आपमं २, १५, १; -चीषु  
 नाश्रौ ३, ८, ४; निच् ६, १०: १२;  
 -च्यः वौश्रौ ६, ८: ८; वाघुश्रौ  
 ३, ५८: ५; ८.  
 पराक्-त्व- -त्वम् लाश्रौ २, ७,  
 ९; -त्वात् निच् १, ११: २९.  
 पराक्-शब्द- -शब्दस्य नीसू १०,  
 ५, ४५; ४७.  
 पराग्-वसु<sup>१</sup> - णिसुः<sup>१</sup> आपश्रौ  
 ३, १८, ४; २४, १३, १; कौसू  
 ३, ६; १३७, ३८.  
 पराङ्-मनस्<sup>१</sup> - नाः अप्रा २,  
 ४, १४.  
 पराङ्-मुख<sup>१</sup> - -खः गौपि १, ३,  
 १०; विघ २८, १८; -खम् वृदे  
 ६, १५२; -खस्य विघ २८, २०.

पराचीन- -न्म् आपश्रौ ३, २०,  
 ४; ६, १२, २xx; वौश्रौ; -ना  
 अप्रा ३, ४, १<sup>१</sup>; -नेन आपश्रौ  
 १२, ८, ६; वाश्रौ ३, २, ५, ११<sup>१</sup>.  
 पराचीन-पाणि<sup>१</sup> - णिः  
 आश्रौ २, ६, १५.  
 पराचीन-पारा<sup>१</sup> - -शम् वौश्रौ  
 १०, २२: १२; वैश्रौ १८, १३: ९.  
 पराचीन-मूल<sup>१</sup> - -लात् कौसू  
 ५०, २२.  
 पराचीन-रात्र<sup>१</sup> - -त्रे आपश्रौ  
 ८, ११: १७; आश्रौ ८, १३, २;  
 हिश्रौ ५, ३, ३४.  
 परा(रा-अ)ञ्चन- -नैः वा ११, २५.  
 णिपराच<sup>१</sup> - -चैः आपश्रौ<sup>१</sup> ९, ४, १;  
 १८, १२; वौश्रौ ८, १९: १५<sup>१०</sup>;  
 आश्रौ ९, ५, २२<sup>१०</sup>; हिश्रौ<sup>१०</sup> १५,  
 १, ७५; ८, १२; आपमं; वा  
 ११, २५<sup>१०</sup>कृ.  
 परा/चर्, णिपरा (चरति) आपश्रौ  
 १६, ७, ४; वैश्रौ १८, ५: ३;  
 हिश्रौ ११, २, २.  
 परा(चरत्)- -रन्तम् वा १४, ३<sup>१०</sup>कृ.  
 परा/जि<sup>१</sup>, पराजयते वौश्रौ १२,  
 १५: २३; पराजयेधे वौश्रौ १६,  
 २६: ८<sup>११</sup>; पराजयाते वौश्रौ  
 १३, २८: १६; १७; पराजयेत्  
 अप्र ५१, २, ५.  
 पराजिने वौश्रौ १६, २६: ९<sup>११</sup>.  
 परा-जय- -चः विघ ८, ३८; -चम्  
 अप्र ५१, १, २; ६३, ५, १;  
 आज्यो १०, २.  
 परा-जित, वा- -न्तः अप्र ३३, १, ३;  
 ७०<sup>११</sup>, ११, ३; -ताः वाघुश्रौ ४,

a) = ऋदि-विशेष-। व्यु. १। = सपा. ऋदि ३, २१, ४; २२, २। खि. अतुक्कल्प्यां [३] तु 'रागदा' इति पामे.। b) पा १, ३, ३९ परानृष्टः द्र.। c) वैप १ द्र.। d) सपा. शौ ६, १२४, २ पराचैः इति पामे.। e) विप.। वच.। f) पामे. वैप २, ३खं. परावसुः मात्रा १, ५, १, २३ टि. द्र.। g) = अप्र-रात्र-। h) पामे. वैप २, ३खं. पराचैः तैत्रा ३, ७, ३, ६ टि. द्र.। i) पा १, ३, १९ परानृष्टः द्र.।

६३ : ३; अत्र ८, ८<sup>१</sup>; -ताम्  
 सु ५, १.  
 परा-जैव्यमाण- -गान् कौसू १५,  
 १६.  
 परा√णी(<नी) > परा-णीय माश्रौ  
 ५, १, ६, २१.  
 परा√णु(<नु)द्, पराणुदस्त्र ऋप्रा  
 ५, ६०<sup>१</sup>; पराणुदत् वृदे ४,  
 १३४; अत्र ३, १८; १९.  
 परा(रा-अ)तिजगती<sup>१</sup>- -ती अत्र  
 ५, २७; १२, १.  
 परातिजागता- पर- द्र.  
 परा(रा-अ)तिशकरी<sup>१</sup>- -री अत्र ५,  
 २६; १२, १.  
 परा√अस्, (परा) अतिअस्त् अत्रा  
 ३, ४, १<sup>१</sup>.  
 परा-त्रिष्टुम्<sup>१</sup>- -ष्टुप् अत्र ११, ९;  
 १८, ३.  
 ऋपरा√दा, परादेहि आपमं १, १७,  
 ७; कौसू ७२, २०.  
 परादद्; शांश्रौ १२, २०, २;  
 परादात् माश्रौ २, ५, ४, २४;  
 परादाः माश्रु २, १६, ३; या ५,  
 १६.  
 परादि- पर- द्र.  
 परा√दृश् > परा-दृश्य माश्रौ १, ७,  
 ४, ३६.  
 पराद्य- पर- द्र.  
 परा√धम्, ध्मा, पराधम आपमं १,  
 १५, २<sup>१</sup>.  
 ऋपरा-ध्मात्- -ताः आपश्रौ १,  
 २०, ८; वैश्रौ ४, ७ : ७; हिश्रौ  
 १, ५, ६३.

परा√धाव् ( गती ), परा ( धावसि )  
 वैताश्रौ ३२, १७<sup>१</sup>.  
 पराधिकार- प्रष्ट. पर- द्र.  
 परा(रा-अ)नुष्टुम्<sup>१</sup>- -ष्टुप् अत्र १,  
 ३१; ३, २२; ४, १०; ६, १३४;  
 ७, ६०; ८, ७; १९, ४०<sup>१</sup>; -ष्टुमः  
 अत्र ४, २९; १४, २.  
 परा(रा-अ)न्त्य- -न्त्ये अर्पं ४ : ३.  
 पराच्च- पर- द्र.  
 परा√पत्, परापतति वौश्रौ ४, १ :  
 २१; १८, ३६ : ४; हिश्रौ ४,  
 १, २१; ऋपरापतात् शांश्रौ १, ६,  
 २; कौश्रु १, १२, ६, ऋपरापत  
 आश्रौ २, १८, १३; आपश्रौ;  
 परापतत् आपश्रौ २४, १२, ६<sup>१</sup>;  
 वाधुश्रौ ४, ६४<sup>१</sup> : २; ऋपश्रु २;  
 २; १२; ११, १२<sup>१</sup>; हिश्रु १,  
 ११, ११<sup>१</sup>; परापतेत् भाश्रौ ७,  
 १, १४; माश्रौ २, ३, ३, १०;  
 वैश्रौ १०, २ : १.  
 परापपात वैताश्रौ १२, ९.  
 परा-पतित- -तम् भाश्रु २, २२ : ८<sup>१</sup>.  
 परा-पातु( क > )का<sup>१</sup>- -का भाशि  
 ३६<sup>१</sup>.  
 परा(र-अ)पर-पर- पर- द्र.  
 परा√पश, परापश्येत् काश्रौ २५,  
 ४, १; आपश्रौ ९, ६, १२; हिश्रौ  
 १५, २, १८; अप्राय ५, २.  
 ?परापश्या अत्र २, ३४.  
 परापहाण- > णा<sup>१</sup>- पा, पाग ४,  
 १, ४.  
 ऋपरा-पुर<sup>१</sup>- -पुरः आश्रौ २, ६, २;  
 शांश्रौ ४, ४, २; आपश्रौ.

परा√पू, परापुनाति आपश्रौ १,  
 २०, ७; वौश्रौ १, ६ : २३; २०,  
 ७ : ८; ९; भाश्रौ १, २१, ३;  
 परापुनीहि कौसू ६१, २५<sup>१</sup>.  
 परा-पावम् आपश्रौ १, ७, १०;  
 भाश्रौ १, ७, ५; माश्रौ.  
 ऋपरा-पूत, ता- -तम्<sup>१</sup> काश्रौ २, ४,  
 १८; आपश्रौ; -ताः<sup>१</sup> आपश्रौ  
 १, २०, ७; वौश्रौ १, ६ : २३;  
 भाश्रौ १, २२, ३.  
 परा√वाध्, परा...वाधस्त्र जैश्रु १,  
 १ : १७<sup>१</sup>.  
 परा-वृहती<sup>१</sup>- -ती अत्र २, २९; ५,  
 ३; २९; ७, १११; १२, २; ३.  
 परामिसृष्ट- पर- द्र.  
 परा√भू, परामवति कौसू ९४, १;  
 परा...भवति वौश्रौ १४, ८ :  
 १३; परा (भवति) शांश्रौ १४,  
 ३२, १; परामवन्ति वौश्रौ २४,  
 २५ : १९; ऋपराभवन्तु<sup>१</sup> आपश्रौ<sup>१</sup>  
 ४, १५, ४; भाश्रौ ४, २१, २;  
 हिश्रौ ६, ४, २१; ऋपराभवन् वैश्रौ  
 ८, १ : २; आश्रिष्ट ३, ८, ३ : ५;  
 वौषि १, १५ : ७६; परा(अभवन्)  
 शांश्रौ १४, ३२, १; वौश्रौ  
 १४, ८ : १०; १७, ४७ : ८;  
 परामवेत् भाश्रु २, ६ : १६.  
 परामावयति आपश्रौ ५, १५, ३.  
 परा-भाव्य वौश्रौ २, ७ : १.  
 परा-भूत, ता- -ताः वाधुश्रौ ३,  
 ४६ : १५; अर्प ३३, २, १.  
 पराभूत-वेणु- -णोः कौसू ४७,  
 २४.

a) = छन्दो-विशेष-। कस. । b) विप. । वस. । c) पामे. वैप १, १९१९ b द्र. । d) वनुष्टुप् इति पाठः ? यनि. शोधः ( तु. ष. सात. च ) । e) उभा ( ? महा < महान्ता [ अधिनौ ] ) कवी युवा ( ना ) यो (< यदृ च यद्वा \*यस [ अय्य. ] ) नो धर्मः परापतत् ( = श्रुतत् ) इति शोधितः पूर्वोऽर्थर्चः द्र. । उत्तरस्याऽर्थवैच्य कृते तु. टि. ? महा । f) वैप १ द्र. । g) तु. पागम. । h) पामे. वैप १, १९२० c द्र. । i) पामे. वैप १, १९२० f द्र. । j) पामे. वैप १, १७८३ e द्र. ।  
 वैप ४-वृ-७

परा-भूति- न्याः अत्र १६, ८१.  
परा/मृश>परा-मर्श- शैः वृदे ५,  
२४.

परा-मृशत्- शन् शांश्रौ १८, २१,

८.

परा-मृश्य कौसू १७, १४.

परा-मृष्ट- ष्टः वृदे ५, २३.

परायण-, परा-यत्-

परे(रा/इ) द्र.

परा/या, णिपरयाहि आश्रौ ६, ११,

१२; शांश्रौ १०, १, ११;

णिपरायात आमिष्ट ३, १, ३:

३४; भाग्य २, १४: १३; हिद्य

२, १३: २; कौसू ८८, २८;

अप ४३, ६, ४.

परायापयति कौसू ८८, २८.

परारि- पा, पावा ५, ३, २२.

परारि-त्त- पावा ४, ३, २३.

परार्थ- प्रभृ. पर- द्र.

णिपरा-वत्- -वत् आश्रौ ३, ७, ९;

-वत्तः आश्रौ २, १४, १२; ६, ४,

१०××; शांश्रौ; या ७, २६; ११,

४८०; -वत्तम् आपश्रौ ३, १४,

२; २२, ४, २७; वौश्रौ; -वति

शांश्रौ ६, ६, ४; ८, १६, १; वौश्रौ

१, ११: १०; १५; २०; माश्रौ

२, १, ९; -वते अप ४८, १०९.

परा/वद्, णिपरावद् आश्रौ १०, ३,

४; लाश्रौ ३, ११, ३; हिद्य १,

१६, १९.

?परावद्<sup>b</sup> अप ३३, ६, ९.

परा/वघ्, णिपरावघीत् आपश्रौ ७,

९, ९; वौश्रौ ४, ४: ९; १५,

२९: ३८; माश्रौ.

परा/वप्, परावपति वौश्रौ ६, २८:

१७; १३, २१: ७; वैश्रौ १४,  
८: ४; परा ( वपति ) भाशि  
१२३१.

णिपरो(रा-उ)वप<sup>c</sup> आपश्रौ ५, २७,

१२; माश्रौ ५, १९, ९; माश्रौ

१, ६, ५, ७; वैश्रौ १, १९: १७;

हिश्रौ ३, ६, १२; परो(रा-उ)वप

वाश्रौ १, ५, १, ९<sup>c</sup>.

परो ( रा-उ ) प्येत वाधुश्रौ ४,

११२: ४; ६.

परा-वप- -पम् वैष्ट ४, ५: ११.

परावर-योग- प्रभृ. पर- द्र.

णिपरा-वसु<sup>d</sup>- -सुः<sup>e</sup> आश्रौ १, ३, ३१;

शांश्रौ १, ६, ६; वौश्रौ ३, २८: ४;

माश्रौ.

परा-विराज्- -राट् अत्र १०, १०.

परा/वृज्, परावर्क् उस् ७, १७<sup>f</sup>.

परा/वृत्, परावर्तते वौश्रौ २९, १३:

१; वैश्रौ १२, १२: १०.

परा-वृत्त- -त्तः वौघ ४, ५, ७.

परावृत्त-मुख- -खः वैष्ट ५, ५:

२६.

परा-शकरी<sup>g</sup>- -री अत्र ७, २१; १२, १.

परा/श(द् >)त् >पराशातयित्-

-त्ता या ६, ३०.

१पराशर-(>पराशरीय- पा.) पाग

४, २, ८०.

पराशिप्- प्रभृ. पर- द्र.

णिपरा/श्रु, श्रु (हिंसायाम्), परा-

( शृणन्तु ) अत्र ८, ३<sup>h</sup>; परा-

( शृणीहि ) ऋषा १२, २०<sup>h</sup>.

परा ( रा-अ ) शरीत् आपश्रौ ३,

१४, ३; माश्रौ ३, १३, १; हिश्रौ

२, ६, ३४.

२परा-शर<sup>i</sup>- पाग ४, १, १०५; २,

१११; -रः अप ३, १, ७; ४८,

११५<sup>h</sup>; ऋषा; या ६, ३०<sup>h</sup>;

-रम् शंघ ११६: ४०; -रा:<sup>h</sup>

वौश्रौप्र ४८: १; २; ४; ६; ८; १०;

१२; १३; -राणाम्<sup>h</sup> आश्रौ १२,

१५, २; आपश्रौ २४, १०, ६;

हिश्रौ २१, ३, १४; चात्र ४०:

३; -राय आमिष्ट १, २, २:

२३; वौष्ट ३, ९, ५; भाग्य ३,

१०: ८; हिद्य २, १९, ६; -रभ्यः<sup>h</sup>

आपश्रौ २४, १०, ४.

पाराशर्य- पा ४, १, १०५;

-णि<sup>o</sup>र्च आश्रौ १२, १५, २;

आपश्रौ २४, १०, ६; वौश्रौप्र

४८: १४; हिश्रौ २१, ३, १४; वैघ

४, ६, १; -र्यम् अत्र ६, ६७<sup>l</sup>.

पाराशरी- यौ<sup>l</sup> अप-

१, ३, १.

पाराशर- पा ४, २, १११;

-राः चव्यू २: ३७.

पाराशरिन्- पा ४, ३,

११०.

पराशर-वत् आपश्रौ २४, १०,

६; वौश्रौप्र ४८: १५; हिश्रौ

२१, ३, १४; वैघ ४, ६, १.

परा-शीर्ण- -र्णस्य या ६, ३०.

पराश्रित- पर- द्र.

परा(रा/अ)सु (क्षेपणे), परास्यति

हिश्रौ १८, ४, २६; लाश्रौ १०,

१५, ८०; परास्यन्ति या ३, ४;

परा...स्यन्ति वौश्रौ ८, १९:

८<sup>h</sup>; परास्यामि सु २८, ५;

परास्यः शांश्रौ १२, १८, ६<sup>h</sup>.

परा(रा-अ)स्त- -स्ताः आपश्रौ १,

८, ७.

a) वैप १ द्र. । b) पाठः ? परावद् इति संत्कर्तुः टि. । c) परस्परं पाप्मे. । d) वैप २, ३ खं. द्र. । e) पाप्मे. वैप २, ३ खं. परावसुः माश २, ५, १, २३ टि. द्र. । f) विप. । वस. । g) = ऋषि-विशेषः । वैप १ द्र. । h) बहु. <पाराशर्य- । i) विप (सूक्त- ) । j) विप. (पराशरदेवताक- ] नक्षत्र- ) ।

परा(रा-अ)स्य शांश्री १३, २९, २;  
 आपश्री १२, १९, ६; वौश्री.  
 परा/सिच्, परासिचम् ँआश्री  
 १, ११, ८; ६, १२, ११.  
 परा...सिच्यते वौश्री १७, ५० :  
 ३; परासिच्यते वाधूश्री ३, ३९ :  
 १२; ४, ११२ : ६; परा...सिच्येत  
 वाधूश्री ४, ११२ : ४; परासि-  
 च्येत् वौश्री २९, ६ : १७;  
 २४; वैश्री २१, १८ : ३; वौग  
 ४, १, ७; ८.  
 ँपरासेचि शांश्री ४, ११, ६;  
 काश्री २५, ५, २८; आपश्री.  
 परा(रा-अ)सु<sup>२</sup>-सुः लाश्री ३, ३, ७.  
 ँपरा/सू (प्रेरणे), परा...सुवामि<sup>३</sup>  
 आश्री २, १०, ४; कौग १, १७,  
 ६; परासुव आपश्री ६, २३, १;  
 परा...सुव<sup>४</sup> आपश्री ६, २३, १;  
 कौसू ५८, १; अप १, २६, ४.  
 परा...साविपत् शांश्री ८,  
 १८, १.  
 परा/हन्, पराहन्ति आपश्री २, ३,  
 १५; पराहण्यात् माश्री २, ३,  
 १८; वाधूश्री ३, १०६ : २; ३;  
 हिश्री १, ६, ११५.  
 परा/हृ > परा-हृत् - तम् आपश्री  
 ९, ६, ४; माश्री ९, ७, ८; हिश्री  
 १५, २, १२.  
 ँपरि<sup>५</sup> आश्री ४, ७, ४६; १३, ७; ५,  
 १०, २८; ६, ५, २; १२, १२<sup>६</sup>,

१३, १५<sup>६</sup>; ७, २, १०; शांश्री १,  
 १४, १८; ७, १५, ८<sup>७</sup>; १२, १८,  
 ८<sup>१</sup>; काश्री १६, ५, २१; २५,  
 ११, २२<sup>१</sup>; आपश्री १, २४, ५,  
 ३, ११, २<sup>६</sup>; ५, १२, २××; ८,  
 ८, १८<sup>६</sup>; ९, ८, ७<sup>६</sup>; १२, ३<sup>६</sup>;  
 १३, २२, ५<sup>६</sup>; १५, १६, १०<sup>६</sup>;  
 १७, १२<sup>६</sup>; १६, ६, ७<sup>६</sup>; १९, १०,  
 ५<sup>६</sup>; वौश्री १, ९ : ९××; ८, २० :  
 २१<sup>६</sup>; ९, १६ : २४<sup>६</sup>; १७ : २३<sup>६</sup>;  
 १०, ४ : ११<sup>१</sup>; १५, २४ : २<sup>७</sup>;  
 २७, १ : १६<sup>६</sup>; २९, ३ : १८<sup>६</sup>; माश्री  
 १, २५, ६; ३, १०, २<sup>६</sup>; ५, ८, १;  
 ११, १६, १४<sup>६</sup>; १८, ३<sup>६</sup>; माश्री  
 १, २, ३, १४; २, ४, ३, २९<sup>७</sup>;  
 ५, ४, १३<sup>१०</sup>; ४, ३, ४१<sup>६</sup>;  
 ६, ५<sup>६</sup>; ६, १, ४, १८; वाधूश्री;  
 वाश्री ३, २, ७, ४२<sup>६</sup>; वैश्री  
 १६, २६ : १०<sup>६</sup>; १८, ४ : ९<sup>६</sup>;  
 २०, १५ : ३<sup>६</sup>; २४ : २<sup>६</sup>; २१,  
 ३ : १<sup>६</sup>; हिश्री २, ६, १०<sup>६</sup>; ३, ३,  
 १७<sup>६</sup>; ११, २, ५<sup>६</sup>; २३, १,  
 ५५<sup>६</sup>; द्राश्री ६, ४, ९<sup>६</sup>; लाश्री २,  
 १२, १०<sup>६</sup>; वैताश्री १६, १७<sup>१</sup>;  
 २३, १५<sup>०</sup>; आपमं १, ६, २<sup>७</sup>;  
 २, १९, २<sup>१</sup>; कौग १, ५, २९<sup>६</sup>;  
 पाग २, ११, १२<sup>१</sup>; आमिग १,  
 २, ३ : १५<sup>६</sup>; २, ४, ६ : २६<sup>६</sup>;  
 ६, २ : २६<sup>६</sup>; ८ : ४७<sup>६</sup>; ३, ४,  
 ४ : १४<sup>६</sup>; ६, १ : ३४<sup>६</sup>; ३ : ३७<sup>६</sup>;

८, ३ : ४३<sup>६</sup>; वौग २, ५, ४४<sup>६</sup>;  
 वौपि १, ९ : १०<sup>६</sup>; १२ : ११<sup>६</sup>;  
 १६ : २७<sup>६</sup>; ३, ४, १८<sup>६</sup>; द्विपि  
 ८ : ३<sup>६</sup>; जैगृ १, ४ : १२; १३ :  
 ८; अप्राय ३, १०<sup>१</sup>, अप ४१,  
 १, ७<sup>६</sup>; वौघ<sup>६</sup> २, ५, १३; १०,  
 ५१; ऋअ २, ९, १४<sup>७</sup>; १०९<sup>५</sup>;  
 साअ<sup>६</sup> १, ४२७<sup>६</sup>; २, ११७<sup>६</sup>;  
 अअ ५, ६<sup>५</sup>; निघ ४, २<sup>१</sup>; या  
 १, ३<sup>१</sup>; ५, २८<sup>६</sup>; ६, १<sup>२</sup>; १०,  
 ७; ११, १७; १२, ३१; ऋप्रा  
 ४, ४४<sup>६</sup>; ६४<sup>६</sup>; ५, १६<sup>६</sup>; १५,  
 १७<sup>६</sup>; पा १, ४, ९०; २, १, १२;  
 ३, १०××; पाग १, ४, ५८<sup>६</sup>.  
 परि- -रिणा पा २, १, १०;  
 -रेः पा ६, १, ४४; २, १८२;  
 ८, १, ५<sup>३</sup>; २, २२; पावा ८, १,  
 ५<sup>२</sup>; २, १९; -रौ शुप्रा ३, ३१;  
 शौच २, ६६.  
 परि-प्रत्यु(ति-उ) पा (प-अ)प- -पाः  
 पा ६, २, ३३; -पेभ्यः पावा ६,  
 २, ३३.  
 पर्या(रि-आ)दि- -द्वयः पावा २, २,  
 १८; -दिभ्यः पावा ६, २, १२१.  
 पर्यादि-वर्जम् शौच २, ६७.  
 परिश<sup>८</sup> -शम् हिश्री १२, ६, ६<sup>१</sup>.  
 परि/कथ्, परिकथ्यते अप २३,  
 १०, ३.  
 परि-कथित- (> ँतिन्- पा.)  
 पाग ५, २, ८८.

a) विप. । वस. । b) पामे. वैप १, १९२४ f द्र. । c) पामे. वैप १, १९२४ h द्र. । d) वैप  
 १ द्र. । प्रायेण पञ्चम्यादि-युक्तः कप्र. । e) वैप १, १९२५ n द्र. । f) तु. सस्थ. टि. ?महा, ?युवा । धर्मणः  
 (परि = सत्यस्य धर्म परिरेदय) इति पं. युक्तः कप्र. । g) वैप १, १९२५ c द्र. । h) पामे. वैप १, १९२६ r द्र. ।  
 i) स्वाअ. । j) दोपात् इति युक्तः कप्र. (तु. चौंसं, C [आपश्री १०, १३, १०] च) । पदि इति कासं पाठः ? यनि.  
 शोधः । k) वैप १, १९२३ z द्र. । l) वैप १, १९२६ d द्र. । m) वैप १, १९२४ n द्र. । n) वैप १,  
 १९२६ e द्र. । o) पाठः ? पती (संर) इति शोधः (तु. टि. पती आश्री ६, १२, १२) । p) वैप १,  
 १९२६ n द्र. । q) वैप १, १९१६ c द्र. । r) वैप १, १९२७ h द्र. । s) वैप १, १९२६ g द्र. ।  
 t) वैप १, १९२६ f द्र. । u) वैप १ द्र. ।

१परि-कर्मन्<sup>a</sup>- -मिणे भाग्य २,  
१९:१०.

२परि-कर्मन्- परि/कृ द्र.

परि-कर्म<sup>b</sup>- पागवा ६,२,१८४.

परि/कल् > परि-कलित-  
( > णिन्- पा. ) पाग ५, २,  
८८.

परि/कास् > परि-कासन- -ने  
आपग्य ९, २; वौश्र ४, २, ११.

?परिकासयातै<sup>c</sup> वौश्रौ १४, २१ :  
३२.

परि-किरण- प्रभृ. परि/कृ (विक्षेपे) द्र.

परि/कीर्ति ( < कीर्ति- ), परि-  
कीर्त्यते कप्र २, ८, १; ३, ६, ६;  
वृदे ४, ४६.

परि-कीर्तन- -नम् वृदे ३, ४७.

परि-कीर्तयत्- -यन् पाग्य ३, १२,  
८; शंघ ३८७; विध २८, ४९.

परि-कीर्तित, ता- -तः अप २२,  
१, ५; शंघ; -तम् कप्र १, ७, ४;  
८, १९; अप; -ता कप्र २, ५,  
१; अप ३०, १, ४; ३४, १, ५;  
वौघ; -ता: कप्र १, ७, १०; १०,  
६; अप; -ते शंघ ५३; -तौ  
वृदे ४, १०९.

परि-कीर्य परि/कृ (विक्षेपे) द्र.

परि/कुप् > परि-कुपित- -तेन.  
आपमं २, २२, ६; भाग्य २, २७ :  
१५; हिग्य १, १४, २<sup>d</sup>.

परि/कृ<sup>e</sup>, परि-कृर्वीत आमिग्य ३,  
६, २: १४.

२परि-कर्मन्<sup>f</sup>- > णिन्<sup>g</sup> -मिणः  
शांश्रौ १६, १८, १७; वौश्रौ ६,  
१२: १××; -मिणम् वौश्रौ

१, ९: ४; २, १९: १;

-मिणे आश्रौ २, ४, १६; वौश्रौ

४, २: ३७; ६, १५: ११; १५,

४: ६; वैश्रौ १२, १९: १२;

-मिण्यः वौश्रौ ६, ३०: ९; २५,

१२: १; १५: १८; -मी वौश्रौ

९, ११: ३०; १३: ८; ११, ८:

११; १४, २४: ५; १७.

परि/कृत् (छेत्ने) > परि-कृत्त-  
-त्तम् काश्रौ ८, ५, २३; आपश्रौ  
१२, २, १४.

परि-कृत्यमान- -नः वाश्रौ १, ६, ५,  
१०<sup>h</sup>.

परि/कृप्, परिकर्षति वौश्रौ १०,  
९: १९; १०: २××; वाश्रौ.

परिकृषेत् वौश्र १६: १६; १८.

परि-कर्षण- -णम् वौश्र २१: ५;  
-णयोः वौश्र १६: २०.

परि-कृष्ट- -ष्टम् काश्रौ २१, ४, १८.

परि-कृष्य काश्रौ २१, ४, १०;  
आपश्र ३, ३; हिग्य १, ४२.

परि-कृष्य- -ष्यः वौश्रौ १७, २९ :  
७; ९; १३; १७; ३०: ७; १०.

परि/कृ (विक्षेपे), परिकिरति काश्रौ  
८, ६, ३०; आपग्य ९, ५; हिपि;  
परिकिरामि वौशि १, १५: ७१<sup>i</sup>.

परि-किरण- -णम् अप ४४, ४, ५.

परि-किरत्- -त्त् गोश्र ४, ९, २०;  
कौसू ३६, २२.

परि-कीर्ण- -र्णः कौसू ८९, ९.

परि-कीर्य काश्रौ २६, ३, ९; आपश्रौ  
१९, ५, ११<sup>j</sup>; वौश्रौ.

परि/कलृप्, परिकल्पयेत् मैश्र ६.  
परि-कल्प्य कप्र २, १०, १.

परि-केश- पागवा ६, २, १८४.

?परिकेश्य<sup>k</sup>- -श्यः वौश्रौ १८, १: ५<sup>l</sup>.

परि/कम्, परिकामति वौश्रौ १,  
२०: ३; ७, १३: २१; २३; माश्रौ;

परिकामतः आपश्रौ १२, २२, ७;

माश्रौ २, ४, १, १२; पाग्य १, ७,

३; आमिग्य १, ६, २: १४;

परिकामन्ति काश्रौ २१, ३,

७; २६, ४, ४; णपरिकामतु<sup>m</sup>

आपमं २, १८, ३२; भाग्य २, ९:

८; परिकामन्तु हिग्य २, ८, ११<sup>n</sup>;

परिकामेत् द्राश्रौ ४, ४, २; लाश्रौ

२, ३, १७; निसु; परिक्रमेया-

ताम् जैश्र १, २१: १६; परि-

क्रामेयुः वौश्रौ २०, १४: २८;

२४, २९: १२; २५, १९: १०.

णपरि (अकमीत्) काश्रौ १६, २,

२३; आपश्रौ ७, १५, २××;

वौश्रौ.

परिक्रमयति माश्रौ १, ५, ४, ११;

६, १, ६, १७; परिक्रमयेत् आपश्रौ

९, ३, २३; हिश्रौ १५, १, ७३;

१७, १, ३६.

परि-क्रम<sup>k</sup>- -मम् द्राश्रौ ६, ४, १८;

लाश्रौ २, १२, १८; -माः अप

५२, ७, ४; -मे वौश्रौ २०, १६:

२०.

परि-क्रमण- -णम् आपग्य ५, ९; १०;

हिपि १४: १४; -णयोः हिश्रौ

५, ५, १८; -णे वौश्रौ २०, १४:

२७; २६: ४४.

परि-क्रम्य काश्रौ ४, ९, १५××;

आपश्रौ; परिक्रम्यऽपरिक्रम्य

काश्रौ १७, १, ११.

a) = सत्य- । प्राप्त. वा वस. (तु. शक.) वा । b) वैतु. MAT. < परि/कृप्. । c) भूयान् नृको.  
पामे. । d) णिले<sup>o</sup> इति पाठः ? यनि. शोधः ( तु. भाग्य. ) । e) क्रमा ४, ८५ उस् ६, ३ परानृष्टः द्र. ।  
f) = कर्मन्- । गत. । g) = १परि-कर्मन्- । h) त्वाये यत् प्र. । i) श्योऽय इत्ययं स्थाने श्य (श्री-अ) थ  
इति नृको. । j) परस्परं पामे. । k) भावे कर्त्तरि वा इत् ।

परि-क्रान्त,न्ता-न्ताय वौश्रौ ९,  
८ : ६; २५,२० : १५; -न्तासु  
कौश्रु ३, ५, ५; शांश्रु ३, ९, २;  
-न्तेभ्यः हिश्रौ ६,३,८.

परि-क्रामत्-मत्सु आश्रु ४,६,१४;  
-मन् भाश्रौ ७,४, २; -मन्तम्  
आश्रिणु १, १, ३ : २; हिश्रु १,  
५,१.

परि-क्रामम् काश्रौ ३,१, १३; १७,  
५,२०.

परि/क्री<sup>१</sup>, परिक्रीणीते हिश्रौ १३,  
८, २८; परिक्रीणाति वौध १,  
३, ५७<sup>१</sup>; परिक्रीणामि गोश्रु  
२,६,७<sup>१</sup>; परिक्रीणीयात् शाश्रौ  
१५, १५, १४; आपश्रौ १९,  
३,३; वैश्रौ ११, ५ : १.

परि-क्रय-यः मीसू ३,८,१;१०,  
२, ३३; १२, १, ३२; -यात्  
मीसू १०,२,२५<sup>b</sup>; ३,५१;५५;  
-ये मीसू ३,४,४८; १०,३,५५.

परिक्रया(य-आ)न्नान-नात्  
मीसू ३,७,२०.

परिक्रया(य-अ)र्थ-र्थम् मीसू  
१०,२,२३.

परिक्रया(य-अ)विभाग-गात्  
मीसू १०,६,६७.

परि-क्रयण-णे पा १,४,४४.

परि-क्री<sup>२</sup>-क्रिया आश्रौ ९, ५,  
१२; शाश्रौ १४,४२,६<sup>३</sup>; वौश्रौ  
१८, २३ : ११; हिश्रौ १७, २;  
१८; -क्रियाम् वौश्रौ २३,  
१८ : २७; २६,३२ : २०;२३;

-क्रीः हिश्रौ १७,२,४.

परि-क्रीत-तः काश्रौ १९, ३,

१९; आपश्रौ ६, १५, १६<sup>३</sup>;  
अप्राय ६, ४; -ताः वौश्रौ २,  
३ : १४<sup>१</sup>; -तैः वौध ४,८,९;  
-तौ वाश्रौ ३,२,७,७५.

परिक्रीत-वचन-नात् मीसू  
१०,२,२५.

परि-क्रीय भाश्रौ १०, १८, १२;  
लाश्रौ ८,४,४;७; आश्रिणु.

परि/क्रीड् पा १,३,२१.

परि/कुश, ऋपरिक्रोशतु आपमं २,  
२२,९; भाश्रु २, २७ : ३; हिश्रु  
१, १४, ४; परिक्रोशेत् हिश्रु १,  
१४,४<sup>१</sup>.

परि-कुष्ट-ष्टम् आपध १, १८,  
१७; हिश्रु १,५,८६.

ऋपरि-क्रोश<sup>d</sup>-शः आपमं २, २२,  
९; भाश्रु २, २७ : ३; हिश्रु १,  
१४,४.

परि/क्लिञ् > परि-क्लिश्यमान-  
ने पा ३,४,५५.

परि/क्वण् > परि-क्वण<sup>e</sup>-न्तम् या  
६,१.

ऋपरि-क्षिप<sup>m</sup> आपमं १,१३, ५; वौश्रु  
४,२,११.

परि/क्षर, ऋपरि(अक्षरत्) साश्रु १,  
४७५; २,४४३.

ऋपरि(अक्षाः) ऋश्रु २, ९, १८;  
उसू ३,१.

परि/क्षल, परिक्षालयति आपश्रौ  
१,१६,३.

परि-क्षालन<sup>n</sup>-न्तम् काश्रौ ४, २,  
३२.

परिचालना(न-अ)न्त<sup>h</sup>-न्तम्  
काश्रौ ४,२,३८.

परि/क्षि(निवासे) > ऋपरि-क्षित<sup>1</sup>-  
-क्षित् शाश्रौ १२, १७, २;  
-क्षितः शाश्रौ १२, १७, १; ३;

वाश्रौ ३, २, ५, ४३; वैताश्रौ  
३४, ९.

ऋपरि-क्षित<sup>1</sup>-तः वाधूश्रौ ३,  
७७ : १; ८८ : ४; -तम् शाश्रौ  
१६,८,२७; -ताः शाश्रौ १६,  
९, ७<sup>१</sup>.

ऋपरि-क्षित<sup>1</sup>- > ती-त्यः  
शाश्रौ १२,१६,२.

पारि-क्षितीय<sup>1</sup>-याः शाश्रौ  
१६,९,५.

परि/क्षि(जये) > परि-क्षीण- >  
णः(ण-अ)र्थ-वाहन<sup>k</sup>-न्तः अप  
२,४,५.

परि/क्षिप्, परिक्षिपेत् अप ६८, ३,  
१२.

परि-क्षिप्य कप्र २,१,४.

परि-क्षेपक- पा ३,२,१४६.

परि-क्षेपिन्- पा ३,२,१४२.

परि/क्षु > ऋपरि-क्ष्व<sup>1</sup>-न्तः भाश्रु  
२, ३१ : १४; -वम् भाश्रु २,  
३१ : ११; अप १,२६,४;५; -वे  
आपश्रु ९,२; वौश्रु ४,२,११.

परि/क्षुद् > परि-क्षुद्य वौश्रौ ५,  
११ : १५; १३, २५ : १५.

परि/खन् > परि-(ख<sup>1</sup>) > खा-  
पाग ४, २, ११०; -खाम् अप  
१,१०,५; ६२,२,३.

पारि-ख- पा ४,२, ११०.

पारि-खेय- पा ५, १, १७.

परि-खा(खा-अ) त्तिक्रान्त<sup>m</sup>-  
-न्तम् वौश्रौ २४, १३ : ६;

a) पा १,३,१८ परामृष्टः द्र. । b) तु. प्रयासं. प्रमृ. । c) पृ १६८ । द्र. । d) गस. उप. भाप. ।  
e) उप. कर्तारि कृत् । f) श्लोघः वैप १, १९३०० द्र. (भाश्रु. च) । g) = उदक- । उप. करणे प्र. ।  
h) विप. । वस. । i) वैप १. द्र. । j) वैप २, ३४. द्र. । k) विप. । वस. > द्रस. । l) नाप. । गस. उप.  
कर्मणि ङः प्र. (पा ३, २, १०१) । m) पूष. = मर्यादा- इति भवस्वामी, = समुद्र- इति वेङ्कटः ।

-न्ताः वौश्रौ २, ३:२.  
 परि-स्वाय आपश्रौ १७, २६, १५;  
 वौश्रौ १७, २८: ५; हिश्रौ.  
 परि/ख्या, परिव्यन् वा ९, ३१<sup>a</sup>.  
 परि-ख्यात,ता- पाग ५, १, १२४<sup>b</sup>;  
 -तः अप्राय ३, १; -ता भाग्य १,  
 ११:१३.  
 पारिस्वात्य- पा ५, १, १२४.  
 परि/गच्छ, गम्, परि(गच्छति)ताञ्च  
 १, ५५२<sup>c</sup>;  
 ङपरि<sup>०</sup>(अगमम्) कौसू २९, २८;  
 अञ्च ६, १२.  
 परि-ग(त>)ता- -ता काय २८०:  
 ४; -तायाम् आमिगृ ३, ४, ३:  
 ५; ६; वौपि ३, ४, ५; ६; गौपि  
 १, ३, ५; ६.  
 परि-जिगांसत्- -सन् वौश्रौ १६,  
 २९: २.  
 परि/गल् > परि-गणन- -न्तात्  
 पावा ४, ३, १२०.  
 परि-गणित-(> ण्तिन्- पा.) पाग  
 ५, २, ८८.  
 ?परि-गण्य आमिगृ २, ४, ९: ९.  
 परि/गद् > परि-गदित-  
 (> ण्तिन्- पा.) पाग ५, २,  
 ८८.  
 परि/गघ् > परि-गधि(त>)ता-  
 -ता<sup>१</sup> वा ५, १५<sup>१</sup>.  
 परि/गह् > परि-गहन- पाग ८, ४,  
 ३९.  
 परि/गा, पर्यगात् वा ६, ४;  
 परि...गात् वा ६, ४<sup>१</sup>; परि  
 (अगात्) शुञ्च ४, १२४<sup>१</sup>.  
 परि-नाण, न- प्रन्त. परि/गै द.  
 परिगूढ-(> ङङ्क- पा.) पाग ४,

२, ८०.  
 परि/गृ, गृ ( शब्दे ), परिगृणाति  
 वौश्रौ २२, २३: ३; हिश्रौ १४,  
 २, १५.  
 परि/गृह्, प्रह्, परिगृह्णाति काश्रौ  
 २, ६, १८; २३; २, १३, ११<sup>१</sup>xx;  
 आपश्रौ; वैश्रौ २३, १२: ४<sup>१</sup>;  
 परिगृह्णीतः वौश्रौ ५, ५: २३;  
 भाश्रौ ८, ६, १४; नाश्रौ १, ७,  
 ३, ४९; परिगृह्णन्ति वौश्रौ ३,  
 १७: २४; भाश्रौ ७, १२, ६<sup>१</sup>;  
 द्राश्रौ; ङपरिगृह्णामि काश्रौ २६,  
 ५, १४; आपश्रौ ४, १, ८<sup>१</sup>xx;  
 वौश्रौ ८, १५: ७xx. भाश्रौ;  
 परिगृहीमहे आमिगृ १, ५, १:  
 ६<sup>१</sup>; ङपरिगृह्णन्तु आपश्रौ २,  
 २, ३; वौश्रौ १, ११: २३-२५;  
 भाश्रौ २, २, २; भाश्रौ १, २,  
 ४, १५; हिश्रौ १, ६, ८७; ङपरि-  
 गृहाण काश्रौ २, २, १०; आपश्रौ  
 ३, १९, ३; वौश्रौ; परिगृहीहि  
 वौश्रौ ३, २४: १०<sup>१</sup>; पर्यगृहात्  
 वा २०, १०; परिगृहीयात्  
 आपश्रौ १, १४, १७; ९, ३, १३;  
 वौश्रौ २०, ९: ५xx; नाश्रौ.  
 ङपरिगृहीष्यामि आपश्रौ २,  
 ३, ७; वौश्रौ; परिगृहीष्यामहे  
 वायूश्रौ २, १०: ५; ८.  
 परिगृह्यते वौश्र २, २, २०: २३;  
 २६.  
 परि-गृहीव, ता- पाग ६, २, १४६;  
 -तः वैश्रौ १०, ७: ७; -तम्  
 भाश्रौ १२, ६, ५; वायूश्रौ ४,  
 २३: ७; -ता अञ्च ११, ३<sup>१</sup>;  
 -ताम् वौश्रौ १८, ४०: १७;

२२; वायूश्रौ ४, १५: ६; हिश्रौ  
 ७, ४, ५७; -ते वैश्रौ २, ५: ५.  
 परि-गृहीति- -त्यै वौश्रौ २४, २४:  
 ६; ७.  
 परि-गृह्व- -हन्तम् काश्रौ २,  
 २, १०.  
 परि-गृहान- -नौ वायूश्रौ ४, ७९: १.  
 परि-गृह्य आपश्रौ १, ७, ६xx; काश्रौ.  
 ङपरिगृह्यन्(त् >)ती<sup>१</sup>- -ती  
 वौश्रौ १०, ५१: २५; वैश्रौ १९,  
 ६: ८१.  
 परि-गृह्य, ह्या- -ह्याणि उच्च ४,  
 १; -ह्यायाः<sup>१</sup> कौसू १७, २.  
 परि-गृह्यमाण, णा- -णाम् आपश्रौ  
 ४, ५, ४; वैश्रौ ४, १२: ६;  
 वैताश्रौ २, ५; १५, ८; -णायाम्  
 माश्रौ १, ४, १, १४; -णासु  
 हिश्रौ १०, ८, ३८; -णे वैश्रौ  
 २३: १३.  
 परि-ग्रह<sup>१</sup>- -हः काष्ठ ७, ८; उच्च  
 ४, १२; नीसू १२, ४, २५; -हम्  
 काश्रौ २, ६, १८; २३; अप १,  
 १०, १; -हाः शेष २५५; -हात्  
 काठश्रौ ४२; माश्रौ १, १, ३, ३;  
 ७, ३, २५; वाश्रौ १, ६, १, १९;  
 हिश्रौ २३, २, ६; -हे ऋप्रा ३,  
 २३; १०, २०xx; उच्च; -हेण  
 शाश्रौ १५, ५, १०; -हेषु आपव  
 १, २८, २; हिच १, ७, ३८.  
 परिग्रह-प्रसङ्ग- -ज्ञात् विध ३३,  
 २.  
 परिग्रहा(ह-अर्थे)-> ष्यै-  
 -यः वा १, ७; -यम् वा ५,  
 २२.  
 परिग्रहण- -णे वौश्रौ २०, ९: ४.

a) पाभे. वैप १, १९३० e द्र.। b) तु. पागम.। c) वैप ३, १३५४ b द्र.। d) वैप १ द्र.।  
 e) पाभे. वैप १, १९३१ d द्र.। f) परिगृह्णाति इति चोसं.। g) ष्यै इति पाठः? वानि. शेषः। h) =वेदि-  
 (तु. B। मू. LII)। i) भाष. (स्त्रीकार-), नाप. (विदयाः) सीमा- निर्देश- , पारिभाषिकसंज्ञा-[ऋप्रा. प्रन्त.]। मू प्र.।



परिग्रहण-मात्र- -त्रम् कप्र २, ८, १७.  
 परिग्रहणीय- -यौ वौगृ १, २, ६.  
 परि-ग्रहीष्यत्- -ष्यन् वौश्रौ ११, २: १०; २५, ३३: १३;  
 -ष्यन्तम् माश्रौ ५, २, १५, १२.  
 परि-ग्राह- पा ३, ३, ४७; -हम् आपश्रौ २, ३, ७१; ७, ८, ५; ११, ३, १; ५, ११; वौश्रौ; -हयोः माश्रौ ४, ३, ३३; हिश्रौ ६, २, ५; -हात् आपश्रौ १, १४, १७x; वौश्रौ; -हान् वाश्रौ १, १, ५, ११; -हाभ्याम् माश्रौ ४, ३, ३८; -हे आपश्रौ ३, १९, ३; वैश्रौ ९, ४: ७; ५: ५; १०, ३: ३; ७: ७; हिश्रौ २, ८, १५; -हेण हिश्रौ १, ६, १०४; -हैः वाश्रौ १, ७, २, २१; -हौ आपश्रौ २, ३, ८; वौश्रौ ५, ५: २३; २९; भाश्रौ ८, ६, १४; माश्रौ १, ७, ३, ४९; ४, २, २; ६; ३, १७; वैश्रौ ५, २: १.  
 परि√गौ, परिगायति आपश्रौ १६, ६, ४; वैश्रौ १८, ३: ११; हिश्रौ ११, १, ६९; परिगायन्ति हिपि १८: १२; परिगायेत् वौश्रौ २२, २: २६; लाश्रौ ८, ८, ३५.  
 परिगीयते निसू ७, ९: २०.  
 परि-गाण, न<sup>१</sup>] -णम् निसू ३, ६: ३४<sup>०</sup>; -णानि जैश्रौ २४: १; जैश्रौका ३८; -नम् गौपि २, ७, ३४<sup>०</sup>.  
 परि-गायत्- -यन् काश्रौ २२, ६,

१५.  
 परि-गीत- -तम् माश्रौ १, ५, ३, १६; ४, ६; १५; ६, २, ४, १०;  
 -तम् ऽ-तम् माश्रौ १, ६, ५, ७.  
 परि√ग्रह् प्रष्ट. परि√गृह् द्र.  
 परि-ग्राम-> पारिग्रामिक- पा ४, ३, ६१.  
 परि√ग्लै, परिग्लयेत् वाधूश्रौ ४, ३०: २२.  
 परि-घ- परि√हन् द्र.  
 परि-धर्म- -र्मम् हिश्रौ २४, २, ८; लाश्रौ १, ६, ३६<sup>०</sup>.  
 परिवर्त्य- -र्म्यम् काश्रौ २६, २, ६; २८; ७, २; आपश्रौ १५, ५, ६; ६, ४; ११, १६; १३, २; १४, ९; वौश्रौ ९, ५: १३; १२: ४; १३: ५; भाश्रौ ११, ५, ६; ६, ४; वैश्रौ १३, १५: ८; १६: १०, हिश्रौ २४, २, ४; ५, ३; द्राश्रौ २, २, ४०<sup>०</sup>; -र्म्ययोः वौश्रौ १८, २४: ७; -र्म्ये वाधूश्रौ ३, १००: २<sup>६</sup>.  
 ऽपारिवर्त्य- -र्म्याणि माश्रौ ४, १, ३०; ३, ३९; ४, ५; १५.  
 परिवर्त्य-योजन- -नम् काश्रौ २६, २, ३७.  
 परिवर्त्य-शङ्कु- -ङ्कु वाधूश्रौ ३, १००, ६.  
 परि√चक्ष्, परिचष्टे निसू २, २: १९; ४, १: ४१; भागृ १, १२: १५; परिचक्षते निसू ९, ९: १२; आपगृ; परिचक्षमहे जैश्रौ १: ११; परिचक्षीत आपश्रौ ९, ३, १२<sup>१</sup>; भाश्रौ ९, ५, २; हिश्रौ १५, १, ६०; अप्राय

५, २.  
 परि-चक्षा<sup>१</sup>- -क्षा वाधूश्रौ ४, २८: ८; २९<sup>२</sup>: २.  
 परि-चक्षाण- -णः जैश्रौ १: १०.  
 णपरि-चक्ष्य- -क्ष्यम् वौश्रौ १७, ५०: ११; २८, २: ३४; या ५, ८<sup>०</sup>.  
 परि√चक्ष्, परिचरति वौश्रौ ६, १७: १९; भाश्रौ १०, २२, ४; वैश्रौ १२, २२: ५; हिश्रौ ७, ३, ५६; भागृ १, १८: १२; ३, ३: ९; कौसू ८७, १०; परिचरतः या ११, ९; परिचरन्ति वैश्रौ १२, २०: १०; परिचरसि या ११, २३; परिचराणि आश्रौ ९, ५, १६<sup>१</sup>; परिचरेत् वौश्रौ २१, १३: ७; आगृ १, ९, १; आमिगृ; परिचरेयाताम् कौगृ १, १०, २०; शांगृ १, १७, ८; परिचरेयुः कौसू १४०, १७; अप्राय २, ८; ९; गौध १०, ६५; परिचरेम या २, २४.  
 परि-चरण- -णम् पागृ १, ९, १; द्रागृ १, ५, ६; वौध ३, १, १४; -णेन अप १३, १, ११; कौसू ५३, ४; ६७, २१x.  
 परिचरण-कर्मन्- -र्माणः या ३, १३.  
 परिचरण-तन्त्र- -न्त्रेण गौपि १, १, २८.  
 परिचरणी(य>)या- -याः गोय १, १, २४.  
 परि-चरत्- -रन् कप्र १, २, ५<sup>२</sup>; विध ४९, ८; -रन्तः या ११, ९.  
 परि-च(र>)रा<sup>१</sup>- -रा लाश्रौ ६,

a) वैप १ द्र. । b) गौपि. पाठः । c) सपा. ष्णानम् <> ष्णानम् इति पाठे. । d) = पात्र-विशेष-(१धर्म-) । वस. । e) सपा. ष्मम् <> ष्म्यम् इति पाठे. । f) स्वार्थे यत् प्र. । g) ष्म्यौ इति पाठः? यनि. शोधः । h) गस. उप. भाप. । i) पाठे. वैप १, १९३२ f. द्र. । j) विप. । वस. । k) विष्टुति-विशेष- ।

५,३-५; निच् १,८ : १९; २०;  
२१; -रायाम् द्राश्रौ ११, ४,  
१; लाश्रौ ४,४,१.  
परिचर्य पाठ २,१४;२२; आम्निष्ठ.  
परिचर्या- पात्रा ३,३,१०१; -र्या  
लाश्रौ १०, १८, १३; भाग्य ३,  
१ : २; बाध २,२०; शंघ १३८;  
बोध १, १०, ५; गौध १०,  
५६; -र्थायाम् बोध ३,७,१३;  
या ११,२३; -र्यायै बौश्रौ २१,  
१३ : ६.  
परिचार- नान् अप १,९,९.  
परिचारक- पात्र २,२,९.  
परिचारक-सुख्य- -त्वात् अप  
७०,१०,५.  
परिचारि- -रिणः वृद्धे ४,२१.  
परिचि (चयने), परिचिनोति  
आपश्रौ १७, १६, १७; १९,  
१५,३; बौश्रौ; परिचिनुतः बौश्रौ  
२,७ : १८; परिचिनुयाव बौश्रौ  
२०,८ : ७; आम्निष्ठ ३, ६, ३ :  
२३; ४ : १२; बौपि.  
परिचाय्य- पा ३,१,१३१<sup>a</sup>; -च्यः  
बौश्रौ १७,२९;१६; आपथ १४,  
५; हियु ४,४६; -च्यम् बौश्रौ  
१७, २९ : १३; हिश्रौ १२, ८,  
१३; आपथ १४, ४; हियु ४,  
४५; -च्ये बौश्रु १८ : १०;  
-च्येन हिश्रौ १२, ८, १४;  
आपथ १४,७; हियु ४,४८.  
परिचिव- -चिव आपश्रौ १,  
२२,३; १६,१४,७; बौश्रौ १०,  
२१ : ४; भाश्रौ १, २४, ५;  
नाश्रौ; -चितः आपश्रौ १५,

७,९xx; बौश्रौ.  
परिचित्त्व माश्रौ ४, १, २२; २,  
२३.  
परिचिन्त् > परिचिन्तक- -काः  
अप ४०,५,३.  
परिचृत्, परिचृति कौश्रु २३,१९.  
परिचर्तन<sup>b</sup> - नानि बौश्रौ ३, १९ :  
१२<sup>c</sup>.  
परिचृत्य कौश्रु ७२,१२.  
परिचष्ट > परिचष्टा- -ष्टा भाग्य  
३, १ : २९; -ष्टाम् भाग्य ३,  
१ : २९; बोध २, १, ३३; ४,  
२,१०.  
परिचैल<sup>d</sup> - लम् कौश्रु ८५,२२.  
परिच्छद् > परिच्छद<sup>e</sup> - दान्  
वैग्य ३, १६ : ३; ४,४ : १९.  
परिच्छिद् > परिच्छिद्य द्राश्रौ ४,  
१,७; लाश्रौ २,१,६.  
परिच्छिन्न- -न्नः विध २०, १६;  
-न्नम् कौश्रु ४७, १; ११६, ५;  
-न्नाः बोध २, ६, २८.  
परिजन् > परिजात- -तः अत्र  
३, ६<sup>f</sup>; अप्रा ३, ३, ६<sup>f</sup>; पा ५,  
२, ६८<sup>g</sup>; -ते अप १९, १,  
१३.  
परिजायमान- -नम् अप १२,१,६.  
परिजन<sup>h</sup> - -नः वाज्यो ७,१८.  
परिजप् > परिजपित- -तम्  
गोश्रु २,३,१८.  
परिजत- -तम् अप ३६,१६,१.  
परिजप्य गोश्रु ४,५, १८; द्राग्य १,  
४,१०; ४,१,११; अप १, १०,  
३; अप ३६,१४,१.  
परिजाकृत<sup>i</sup> - -तान् हियु २,३,७<sup>f</sup>.

परिजि > परिजिद्य- > <sup>o</sup>च्य-  
लम्ब-कार्य-सुकर<sup>h</sup> - -रम् पा ५,  
१,९३.  
परिजिगांसत्- परिगच्छ द्र.  
परिजिहीर्षत्- प्रम्. परिहृ द्र.  
परिज्ञा, परिजानन्ति हिश्रौ १४,  
४,३८<sup>f</sup>; परिजानात् बौश्रौ ९,  
१६ : १७<sup>f</sup>.  
परिज्ञात्- -नातः शंघ २५५.  
परिज्ञान- -नात् वृद्धे १,२१.  
परिज्मन्<sup>j</sup> - -ज्मनः आपश्रौ १२,  
७, १०; हिश्रौ ८, २, ९<sup>k</sup>;  
-ज्मा आश्रौ ४,१५,२; ५,१८,  
२; शाश्रौ ८, ३,४; आपश्रौ ५,  
२३,३; परि(ज्मा) वृद्धे ७,४६<sup>f</sup>.  
परिज्वन्- पाठ १,१५९.  
परिण(<न)म् > परिगत- >  
-त्त-चयस<sup>l</sup> - -यसः शंघ १६१.  
परिणति- -तिम् हिश्रौ १३, ५,  
१४<sup>f</sup>.  
परिरी<sup>m</sup> -गाम- -नः वृद्धे २, १२१.  
परिणाम-तत्त (<) दंवि २, ९.  
परिणय-<sup>n</sup>यत्, <sup>o</sup>यत्- परिनी द्र.  
परिण(<न)ह्, परिणहन्ति निच्  
४,३ : १५; परिणहोव गोश्रु ३,  
२,३३; जैग्य १, १७;११.  
परिणहते नाश्रौ ५,१,६,२१.  
परिणह- -हः भाश्रौ ४, ७, १;  
गोश्रु ३,२, ३२; -हम् आपश्रौ  
१२, ६, ४; हिश्रौ २३, १, १३;  
हियु १४ : ८.  
परिणह्वा (<अ)स<sup>l</sup> - -सः  
निच् ४,३ : ११; -शाय द्राग्य  
२,५,२९.

a) वैप १ द्र. । b) विप. (दृशे-न) । वस. उप. <श्चेल- । c) नाप. । उप. दरणे घः प्र. घा.  
हस्तध (पा ३,३,११८; ६,४,९६) । d) = संवद्ध- । e) = परिवार- । प्रास. (हु. शक.) । f) अर्थः व्यु.  
च ? । g) पाभे. पृ २५६ ब द्र. । h) सनाहारे. हस्त. । i) ज्मन् इति पाठः ? यनि. शोघः (हु. स्या. ऋ.  
३,२,९ प्रम्.) । j) विप. । वस. । k) वृद्धे. पाठः ।

परि,री<sup>१</sup>णह<sup>२</sup> - णट् वाधूश्रौ ४,  
११२:२; -णहः हिश्रौ १, ५,  
१३:२८; -णहम् हिश्रौ<sup>३</sup> १, ५,  
१२; १४; ऋप्रा ९, १०<sup>४</sup>;  
-णहि शांश्रौ १३, २९, २९;  
काश्रौ २४, ६, ३२; आपश्रौ २३,  
१३, १३; वाधूश्रौ ४, ११२:३;  
५.

†पारीणह<sup>५</sup> - ह्यस्य तैप्रा ३, ७;  
७, ४.

परि-णहन<sup>६</sup> - नम् माश्रौ ४, ७, ५.  
परिणहना (न-अ)न्त- न्ते  
गोश्रु ३, २, ३१.

परि-णह्य हिश्रौ १८, ४, ४९;  
कौसू १८, १७.

परि-णह<sup>७</sup> - (><sup>८</sup>ह-वत्, <sup>९</sup>हिन-  
पा.) पाग ५, २, १३६.

परि,री<sup>१</sup>णह<sup>२</sup> - हम्<sup>३</sup> आपश्रौ  
१, १७, ९; भाश्रौ १, १९, ९.

परीणाहा(ह-आ)दिक- -कम्<sup>३</sup>  
वैश्रौ ४, ४: ६<sup>१</sup>.

परि-णि(<नि)√हन्, परिणिहन्ति  
वौश्रौ ६, २८: ३९; १०, ३३:  
५; हिश्रौ ११, ७, ४२.

परिणि-हत्य आपश्रौ १६, २५, २;  
२१, १८, ३; काठश्रौ ९६; हिश्रौ  
१६, ६, २७; वौपि ३, २, ८.

परि√णी(<नी), परिणयति काश्रौ  
१७, ३, २५; भाश्रु; परिणयन्ति  
आश्रु १, ७, १५; काश्रु ५६, २;  
परि...नयध्वम् माश्रु २, १७,  
१<sup>१</sup>; पर्यणयम् वाश्रु १४, २०<sup>१</sup>;

परिणयेत् वौश्रौ २२, १६: १७;  
२४, ३३: १५; २५, ६: १४;  
१७; वाश्रु.

परिणेष्ये आश्रिणय १, ५, १:  
२८; †परि...अनेषत् काश्रौ २१,  
४, २६; आश्रु ४, ६, १४;  
काश्रु ४५, ११<sup>२</sup>; ५६, २; †परि-  
(अनेषत्) शुश्रु ४, ५४; वृदे ८,  
६१.

परिणीयते कप्र २, १०, १५;  
शुप्रा ३, ८६; परि (णीयते)  
ऋप्रा ५, ५७<sup>१</sup>.

परि-णय- -येन आपश्रौ १०, १२, ९.

परि-णयत्- -यन् आश्रु १, ७, ६.

परि-णयन- -नम् काश्रौ १७, ७, ५.

परि-णाय- पा ३, ३, ३७.

परि-णिनीयु- -युः अप ६२, ४, ५.

परि-णी (त >)ता- -ता गोश्रु २,  
२, ९; सुध ८८, ६; -ताम् पाश्रु  
१, ७, ६.

परि-णीय काश्रौ १७, ३, २६; ७, ४;  
आपश्रौ १६, ३५, ११; वैश्रौ.

परि-णीयमान, ना- -नम् कौसू ६४,  
७; -नाम् कौसू ८१, २०.

परि-णय- -यः आश्रु ४, ६, १५.

पारिणय<sup>१</sup> - -यम् वाध १७, ४६.

परि√तंस > परि,री<sup>१</sup>तंस्य  
आपश्रौ १६, २५, २; १९, ५, ८;  
हिश्रौ ११, ७, ४२; २३, १, ७.

परि√तक् > परि-तकन- -नम् या  
११, २५.

†परि-त(कम् >)कम्प्या<sup>१</sup> - -कम्प्या

निघ ४, १; या ४, १६९; ११,  
२५<sup>१</sup>.

परि√तन्, परितनोति वौश्रौ ६, १५:  
२३; २२: १२×४.

परि-तन्व्य काश्रौ ७, ९, ८; १६, ८,  
१७; २१, ३, ७; ३१; हिपि १३:  
१०; कौसू १६, २०.

प(रि >)री-तान- -ने हिपि १३:  
८.

परि√तप्, परितपति आपश्रौ १, २५,  
८; हिश्रौ ११, ३, ४.

†परीताप्सीत्<sup>१</sup> आपश्रौ १६,  
२५, २; वैश्रौ १८, १७: ५३;  
हिश्रौ ११, ७, ४२.

परितापयेत् काश्रौसं ३२: २०.

परि-तपन- > <sup>१</sup>ना(न-अ)न्त<sup>३</sup>-  
न्तम् आपश्रौ १९, २२, १;  
हिश्रौ २२, ४, १६.

परि-तस्(ः) वैश्रौ १, २: ५; १०×४;  
हिश्रौ; या ११, २५; पा, पावा  
५, ३, ९.

परितः-स्रग्-अङ्कित<sup>३</sup> - -तम् वैश्रौ  
१५, २: ५०.

परितो-भित्ति<sup>३</sup> - -त्तिः वैश्रौ ११,  
८: १४.

परि-तस्थिवस्- परि√ष्ठा(<स्था)  
द्र.

परि√तुप्, परितुष्येत अप २, ३, २;  
३, १, १८:

परितोषयति आम्रिगृ ३, ११,  
४: १७; परितोषयेत् अप १९,  
३, ७.

a) शांश्रौ. वाधूश्रौ. ऋप्रा. पाठः। b) = प्रदेश-विशेष-न, आच्छादन- प्रश्रु.। वैप १ द्र.। c) सपा.

णहम् <> णाहम् <> <sup>१</sup>हादिकम् इति पाठे.। d) वैप १ द्र.। e) = वल्ल-। f) पणा इति पंजा.।

g) आपश्रौ. पाठः। h) = कट-। i) = शकटादिक- इति संस्कृतुः टि.। j) पाठे. वैप १, १९३३ i द्र.।

k) नाप. (दाय-)। परि-णया- (वधू-) + तस्येदमीयः अण् प्र.। l) पाठे. वैप १, १९३४ f द्र.।

m) विप.। वस.। n) विप.। सुप्सुपीयः समासः > तृस.। o) सपा. आपश्रौ १२, १, ०१

परिस्त्रक् इति पाठे.।

वैप ४-तृ-८

परि-तुष्टि- -ष्टये अप ७२, ४, ७.  
 परि-√तृ > परि-तृ (ण्) > ण्णा-  
 -ण्णा वौश्रौ ६, ५ : १६; -ण्णाम्  
 वैश्रौ १२, ९ : ५.  
 परि-√तृप्, परित्ताहृषीः वौश्रौ १६,  
 २३ : १०ः.  
 ?परि L, री<sup>a</sup> ] तोपात्<sup>b</sup> आपश्रौ १०,  
 १३, १०; वौश्रौ २८, ९ : १२;  
 वैश्रौ २३, १ : ७.  
 परि-√त्यजू, परित्यजेत् जैश्रौका १४४.  
 परि-त्यक्त- -क्तः विघ १५, २५;  
 -क्ताः विघ ५४, २७; -क्ते अप  
 १९<sup>२</sup>, १, ४.  
 परि-त्यक्त(व्यु) > व्या- -व्या सुघप  
 ८८:७.  
 परि-त्यजत्- -जन् विघ ५, १६२.  
 परि-त्यज्य वैश्रौ १, १ : २४; वैश्रु  
 ५, ८ : १; अम.  
 परि-त्याग- -गः वाघ २०, ४५.  
 परि-त्याज्य, ज्या- -ज्यः वाघ १३,  
 ४७; -ज्याः वाघ १३, ४९; २२,  
 १०.  
 परि-√जै, परित्रायते वाघूश्रौ ४,  
 ९५ : १०.  
 परित्रास्यति वाघूश्रौ ४, ९५ : ८.  
 परितित्रासते वाघूश्रौ ३, ७९ :  
 २०; ९७ : ४.  
 परि-त्राण- -णम् आपमं २, १७,  
 ३१; -णात् शंघ ३७२.  
 परि-त्रायमाण- -णः वा ९, १५.  
 परि-√त्वर > परि-त्वरमाण- -णः  
 कौसू ५५, १८ः.

?परित्वाहलनोहलनिवृत्तेन्द्रवी-  
 रुधः<sup>c</sup> पाण् ३, ७, ३.  
 परि-√त्सर, परि-...त्सरत् वाघूश्रौ  
 ३, १७ : ३ः.  
 परि-√दद्, परिद्वेदेम अप्राय ३, १०;  
 ४, १.  
 परि-√दह् > परि-दहन- -नम् वौघ  
 १, ४, ३.  
 परि-द्वाहिन- -पा ३, २, १४२.  
 परि-√दा (दाने), परिददाति आपश्रौ  
 १६, ५, ३; ११४x; वौश्रौ:  
 परिददामि आश्रौ १, १२,  
 ३६; आपश्रौ; आपमं २, ३,  
 १३-२०; २१<sup>d</sup>; २२; २३;  
 पाण् २, २, २१<sup>d</sup>; आग्निष्ट १,  
 १, ३ : ४५<sup>d</sup>; हिण् १, ६, ५<sup>d</sup>;.  
 परि-√ददामि आपश्रौ १४,  
 २०, ७; वौश्रौ १४, १४:१; माश्रौ:  
 परिददत् या ७, ९<sup>e</sup>; परि-  
 ददात् आग्निष्ट ३, ५, ४ : २<sup>f</sup>;  
 वौषि १, ३ : १२<sup>f</sup>; ८ : ४<sup>f</sup>?;  
 परिददत् आपश्रौ १४, २०,  
 ७; कौश्र ३, ४, १; २; शाण् ३, ५,  
 १; २; जैश्र १, ७ : ९; ८ : ६;  
 परिदत्ताम् जैश्र १, ८ : ७;  
 परिददत् जैश्र १, ८ : ८<sup>g</sup>; ९;  
 परिद्वेदिहि जैश्रौ १३ : ४;  
 आपमं; परि(द्वेदिहि) भाशि ४३ः;  
 परिदत्तात् आग्निष्ट ३, ६, १ :  
 ४; भाशि ११२; १२०; परिदत्त<sup>h</sup>  
 माश्रौ १, ६, ४, २१; वाश्रौ १,  
 ५, ५, ७; वौघ २, ६, १३;

परिददानि वाण् ७, १२<sup>i</sup>;  
 परिददीत वौश्रौ २०, ६ : ९;  
 वाण् ७, १२; परिददात् द्राण्  
 २, ४, १६.  
 परिद्वेद्वेद्वे ४, ११७.  
 परि-दत्त- -त्तः कौश्र २, ७, १९<sup>j</sup>;  
 -त्त वैश्रौ १, १४ : १८<sup>i</sup>.  
 परि-ददान- -नत्स चाञ्च ८ : ४.  
 परि-दा<sup>k</sup>- -दाम् काश्रौ २२, ४,  
 २६; वैताश्रौ १४, १; भाण् १,  
 २३ : १; २५ : ११; २, २८ : १.  
 परि-दात्तवै हिण् १, ४, २<sup>k</sup>.  
 परि-दान- -नम् वौश्रौ २५, ३१ :  
 ४; हिश्रौ १४, १, २९; ३, ३६;  
 आण् १, २२, २७; -नात् वौश्रौ  
 १५, ८ : १७; आण् २, १, १३;  
 -ने वौश्रौ २०, ६ : ९.  
 परिदाना ( न-ञ् )न्त<sup>l</sup>- -न्तम्  
 वौश्रौ २६, ६ : ३; आण् १, २२,  
 २२.  
 परि, री<sup>m</sup> ]-दाव वौश्रौ २२, ३:१९;  
 २०:२९, ६ : ६; हिश्रौ; आपण्  
 १०, १२; भाण् १, ८ : ५; हिण्  
 १, ७, १०; हिपि २३ : ३.  
 परि > री-त्त- -त्तः शाण् २, १२,  
 २<sup>b</sup>; शुभा ५, ४५; अप्रा ३, ४, १.  
 परि-√दिव् (= √दिव्), परिदिव्यां  
 √कृ, परिदिवयाञ्चके या १, ५.  
 परि-द्वेवन- -ने पावा ३, ३, १५.  
 परि-द्वेवना- -ना कप्र ३, ३, ७; विघ<sup>n</sup>  
 २०, २८; ४६; ४८; वृदे १, ३५;  
 ५०; या ७, ३.

a) वैश्रौ. पाठः । b) पाठः ? परि (कप्र.), दोपात् इति द्वि-दः शोघः ( तु. काश्रौ २५, ११, २२ [चौसं.],  
 C. च ) । c) पाठः ? परि लो (ला-ड) दृध्वलनो (न।अग्ने]ड) दृध्वलन्ति वृत्तानी (नि-इ) ण्डवानि वीरुधः इति  
 शोघः संभाव्यते । d) पाभे. वैप १, १२३८ b द्र. । e) पाभे. वैप १, १९३४ ff द्र. । f) पाठः ? परिदत्तात् इति  
 शोघः (तु. तपा. ऋ १०, १६, २ शौ १८, २, ५ तैत्रा ६, १, ४ आग्निष्ट ३, ६, १:४ प्रम्.) । g) पाभे. वैप १, १९३५ C-  
 द्र. । h) कप्र. परिदत्तः <> परीत्तः इति पाभे. । i) पाठः ? वपरि<sup>o</sup> इति संस्कृतो टि. संभाव्यते । j) भावे  
 ऋ प्र. । k) पाभे. वैप १, १९३६ C द्र. । l) विप. । वच. । m) आपण्. पाठः । n) परिद्वेवना इति Jolly ? ।

परि√दी (L=√डी) गतौ),

†परिदी(य>)या माश्रौ ५, ८, ५; वैश्रौ १, १२ : १८; हिश्रौ ३, ४, ३२; गुप्ता ३, १२९, तैप्रा ३, १२.

परि√दीप्, परिदीपयेत् अप ३६, २९, १.

परि√दंह, परिदंहति माश्रौ ७, ८, १५; हिश्रौ ४, २, ५९.

परिदंहयति वाश्रौ १, ६, ३, १७.

परिदंहण-णम् हिश्रौ ७, ७, ९.

परि√दृश्, परिदृशं वाधूश्रौ ३, २९ : ३; ४, २ : ४.

परिदृश्यते वाश्रौ ३, ३, २, १९;

परिदृश्यन्ते आपश्रौ १८, १३,

११; हिश्रौ १३, ५, १४.

परि...दिदृक्षेत जैश्रौ १९ : १०.

परि√द्व, †परि...द्वीष्ट आपश्रौ २१, १२, ९; वाश्रौ ३, २, २, ३६.

परि√द्वेत् (=√दिव्) <sup>a</sup> > परि-  
द्वेविन्- पा ३, २, १४२.

परि√द्वेवन-, णा- परि√दिव् द्र.

परि√द्रा, परिद्रे शाश्रौ १४, २७, १.

परि√द्रु, परिद्रवति हिश्रौ ४, ३, ४१.

परि√द्वेपस् <sup>b</sup>- -वसः या ५, २३†कृ.

परि√धा, परिधत्ते आपश्रौ १३, २२, ३; १८, ५, ७x; वैश्रौ; परि-  
दधाति आश्रौ ५, ९, २४; शाश्रौ;  
परिदधाते काश्रौ ५, ५, ३२;  
२२, १, २०; वैश्रौ; परिधत्तः  
आपश्रौ १, १४, १२†; १५, ८,  
१; वैश्रौ; परिदधति शाश्रौ १२,

२, २, ७; ६, १८; परिदधामि  
पाग्य २, २७; माग्य १, २, १२;  
परिदधमः अत्र ६, ९९†<sup>c</sup>; †परि  
...दधमसि<sup>d</sup> आश्रिग्य १, १, २ :  
४५; ४७; ४८; काग्य ४१,  
७<sup>e</sup>; हिग्य १, ४, ८<sup>३०</sup>; जैग्य १,  
१२ : ५; ८; १०; परि(दधमसि)  
†जैग्य १, १२ : ५; १९ : १७;  
†परि...दधत् कौसू ४६, ५५;  
अप १, ३६, ७; परि(दधातु)  
कौग्य ३, ५, ५; शाग्य ३, ९, २;  
अप १८<sup>f</sup>, १, ६; अत्र ७, ८;  
परिधत्ताम् वैश्रौ १, १३ : २३;  
†परिधत्स्व आपमं २, २, ५;  
७; पाग्य; आश्रिग्य १, १, २ :  
४१<sup>g</sup>; हिग्य १, ४, ६; †परिधेहि<sup>h</sup>  
आपश्रौ ३, १३, ५; माश्रौ ३,  
१२, ३; हिश्रौ २, ६, ३०; †परि-  
धत्तम् माश्रौ ५, २, ६, १९;  
आश्रिग्य २, ५, १० : ९; †परिधत्त  
आपश्रौ १, १४, १२<sup>b</sup>; माश्रौ १,  
११, १<sup>b</sup>; २, ८, ८<sup>b</sup>; माश्रौ १, ३,  
५, २६; हिश्रौ १, ४, १०<sup>b</sup>; आपमं  
२, २, ६; पाग्य ३, १, २<sup>b</sup>; आश्रिग्य;  
परिदधानि वाग्य ९, ९†; पर्यद-  
धात् पाग्य २, २, ७†; †पर्यधत्थाः  
आपश्रौ ३, ७, १२; वैश्रौ १, १९:  
३३; माश्रौ; परिदधीत् आपश्रौ  
१०, १५, १५; द्राश्रौ; परिदध्यात्  
आश्रौ २, १६, ७x; शाश्रौ;  
परिदधीयाताम् माश्रौ ५, २,  
२४; परिदधीरन् वैश्रौ १, ६, ५.

परिदधे सु २९, ५; †परि...दधे  
आपमं २, २, ११; शाग्य २, १,  
३०; पाग्य; परिधास्ये<sup>i</sup> पाग्य २,  
६, २०<sup>k</sup>; माग्य १, ९, २७; काग्य  
१२, ३; †परिधिपीय आपश्रौ  
१०, ६, ६; हिश्रौ १०, १, ३८;  
पा ७, ४, ४५; †परि...धधा-  
ताम् कौसू ८१, ४६; ८७, ३;  
†परि...धधियाः आपमं २, २,  
८<sup>l</sup>; आश्रिग्य १, १, २ : ३३<sup>l</sup>;  
५, १ : २४<sup>l</sup>; काग्य ४१, ७<sup>l</sup>;  
वौग्य २, ५, १२<sup>l</sup>; माग्य १, ६:  
१<sup>l</sup>; १३ : ९<sup>l</sup>; हिग्य १, ४ :  
३<sup>l</sup>; †परि(अधियाः)<sup>l</sup> आश्रिग्य  
१, ६, १ : २०; वैग्य २, ५ : १३.  
परिधीयते आपश्रौ १४, ४, ५.  
परिधापयति काश्रौ १४, ५, ३;  
१५, ५, ७; वैश्रौ; परिधापयेत्  
वैश्रौ २२, १५ : २; अशां २५,  
१; अप ३३, ७, १.  
परि-दधत्- -धत् आश्रौ ५, १४,  
२५.  
परि-धातवै<sup>m</sup> आपमं २, २, ६;  
आश्रिग्य १, १, २ : ३०; ५, १ :  
२२; वैग्य २, ५, १२; माग्य १,  
५ : १६; १३ : ६.  
परि-धान<sup>n</sup>- -नम् वैश्रौ १४, ४ : ८;  
वौग्य १, ७, १०; अप ३३, ७, १;  
-नस्य शाश्रौ ६, ६, २०; -नात्  
आपश्रौ १०, ६, १०; वैश्रौ १५,  
१७ : १६; माश्रौ ५, २, १, १२;  
६, ३, ६, ८; आपमं १, ४, १०;

a) पा ३, २, १४७ परामृष्टः द्र. । b) वैप १ द्र. । c) वैप १, १९३४ Q, S द्र. । d) पामे. वैप १,

१९३६ m द्र. ।

e) 'दधमसि' इति Old. (Böht [ZDMG ५२, ८१]) ।

f) परि...दधत्स्व

इति पाठः? यनि. शोधः (तु. हिग्य.) । g) पामे. वैप १, १९३६ i द्र. । h) पामे. वैप १, १९३५ c द्र. । i) लुटि  
लुपु १ रूपम् (तु. St.) । j) पामे. वैप १, १९३६ p द्र. । k) ध्यास्ये इति (जयराम-नादाधरी) BW.  
Old. च १ इति पाठः? यनि. शोधः (तु. माग्य. वाग्य.) । एतदतु वैप १ टि. निर्देशः शोधः । l) पामे. शोधश्च वैप  
१, १९३६ p, q द्र. । m) पामे. वैप १, १९३६ t द्र. । n) भाप., नाप. वैप १ द्र. ।

आग्निगृ १, ५, ३: ११; कागृ  
२८, ४१; वीगृ २, १, १११;  
भागृ १, १४: १०१; हिगृ १,  
१९, ७१; जैगृ १, २०: २७१;  
कौसू ५५, ५; -नानि जैगृ १, १२:  
५०; -ने वीश्रौ २०, ११: १७;  
२३: ३६; २१, ५: १; १६: ४;  
२२, १०: १; पावा ३, १, १९;  
-नेन वीश्रौ ७, १: ८.  
परिधान-प्रभृति- -ति आम्रिगृ  
१, ७, ३: १८; वीगृ.  
परिधाना(न-आ)दि<sup>a</sup>- -दि काश्रौ  
२५, ११, १७.  
परिधाना(न-अ)न्त<sup>a</sup>- -न्तम्  
हिगृ १, १९, ४; -न्तानि कौसू  
५४, १७.  
परिधानीय, या<sup>b</sup>- -यम् वैश्रौ  
२०, २३: ७८; -या आश्रौ २,  
१६, ८×४; शाश्रौ; -या: शाश्रौ  
१३, १०, ६; १५, ८, १८; -याम्  
शाश्रौ १, १, २५; ७, २०, १०;  
वाश्रौ ३, १, २, २७; २, २, २०;  
५, ५६; ३, ३, ३४; ४, १, ३७;  
कागृ ३९: ५; -याया: आश्रौ  
५, १, १; ६, ३, १८; ५, २०; ७,  
१, १२; ९, ६, २; आपश्रौ १४,  
९, ३; हिश्रौ १०, ८, ४०; २१, १,  
७; दाश्रौ १५, २, १३; लाश्रौ ५,  
१०, १३; -यायाम् आपश्रौ २,  
१२, ६; १३, १६, ४; हिश्रौ  
९, ४, ४०; -यायै शाश्रौ ७, १०,  
५; १४, ६; २१, ८; ८, ७, ९;  
९, ६, १७; २०, २८; १८, २१,  
३; वैताश्रौ २०, १६.

परि-धापन- -न्तम् आम्रिगृ २, ७,  
१: ९.  
परिधापना(न-अ)श्ममण्डल-  
वर्जम् कौसू ५४, १६.  
परिधापनीय<sup>c</sup>- -यायाम् कौसू  
७९, १३.  
परि-धापयत्- -यन् वीगृ २, ५, ११.  
परि-धाप्य कौगृ १, ७, १; पागृ.  
परि-धाप्यमान- -न्तम् वैताश्रौ १०,  
६.  
परि-धाय आश्रौ २, १७, १०×४;  
शाश्रौ; माश्रौ १, ५, १, १२<sup>e</sup>.  
१ परि-धि<sup>f</sup>- -धय: आश्रौ ३, १४,  
१०; ९, ७, ६; शाश्रौ; -धये  
वीश्रौ ८, १२: २६; -धि: वीश्रौ  
१, १३: २१; २२; २४; आपमं  
२, १७, ३; शौच २, ७७; मीसू  
१२, २, २६६; -धिभि: काश्रौ  
४, २, ४३; आपश्रौ ७, ५, ६;  
१५, ८, १; वीश्रौ ६, १८: ३;  
९, ७: १७; भाश्रौ; -धिभ्य:  
वाश्रौ १, ३, ३, २; -धिम्  
काश्रौ २, ८, २; ३, ६, २×४;  
आपश्रौ; वाश्रौ १, ३, ६, १९१<sup>g</sup>;  
या २, २६१; -धिसु आपश्रौ  
४, १२, ९; १३, १७, १; वीश्रौ;  
-धी आपश्रौ ८, १४, ९×४;  
वीश्रौ; आपमं २, २, ४१<sup>h</sup>;  
-धीन् शाश्रौ ४, १६, ३; काश्रौ;  
-धीनाम् वीश्रौ १५, १७: १६;  
२०, ३: ९×४; भाश्रौ; -धे:  
आपश्रौ १२, ११, ३; ४; माश्रौ  
२, ३, ३, १९<sup>i</sup>; ४, २, ११; वाश्रौ  
१, ६, ४, ७; -धी आश्रौ २, २, ४;

काश्रौ; -धयो: दाश्रौ १२, २,  
२४; लाश्रौ ४, १०, २७.  
परिधि-कर्मन्<sup>l</sup>- -र्म शाश्रौ ४,  
१६, १; ११; कौगृ ५, ८, १; १०;  
-र्मणि वृद्धे ७, ११.  
परिधि-दाह- -हे आम्रिगृ २, ७,  
९: २३; वीगृ ४, २, ४; भागृ  
३, १९: ९.  
परिधि-देश- -शे आश्रौ ३, १०,  
२४; ६, १२, ५; आपश्रौ १, ५,  
२; वाश्रौ.  
परिधि-परिधान- -न्तम् काश्रौ  
५, ६, १३.  
परिधि-विमोक- -कम् भाश्रौ  
६, २, ६; १९; वाश्रौ २, २, ५, ६;  
वागृ १, ३, १.  
परिधि-वृत्त- -क्षणां काश्रौ १,  
३, १८; कागृ ४, १८.  
परिधि-संधि- -धिना आपश्रौ  
७, ५, ६; वाश्रौ १, ३, ४, ३; ६,  
४, १३; -धिम् आपश्रौ २, १२,  
७; १३, ११×४; वीश्रौ; -धी  
माश्रौ १, ३, १, ३१; -धे: माश्रौ  
१, ३, ३, १; ७, १, ३९; -धी  
वीगृ १, ३, २७; २८; -धयो:  
काश्रौ १८, ६, १६.  
परिधि(धि-इ)ध्नो(ध्म-उ)क्ति<sup>m</sup>-  
-क्तौ वैश्रौ ११, १०: ११.  
परिध्य(धि-अ)र्थ- -र्थे आपगृ २,  
२.  
परि-धित<sup>n</sup>- -न्तम् हिश्रौ ६, २, १५;  
-ता: आपश्रौ ११, २, १२; -त्ते  
आपश्रौ १४, ४, ६.  
परि-धीयमान- -न्तम् हिश्रौ ६, २,

a) विप. 1 वस. 1 b) = ऋग्-विशेष- 1 c) विप. (कर्मन्-). 1 d) = मन्त्र-विशेष- (शौ १४, १, ४५; ५३) 1

e) पाभे. पृ ४९७ a द्र. 1 f) वैप १ द्र. 1 g) पा° इति पाठः? यन्नि. शोधः 1 h) पाठः (तु. पै १५, ५, ६. ष्दे [वैतु. BKA. ष्धी इति शोधः ])? परि-दाय (परि√दा ल्यप् प्र.) इति शोधः 1 एतदनु वैप १, १९३७ निर्देशो ज्ञेयः 1 i) = यान्ति-कर्मन्- इति भाष्यम् 1 j) पस. > पस. 1 k) तु. पा ७, ४, ४५ 1

१४; -नान् आपश्चौ ४, ६, ३;  
 वौश्रौ ३, १६ : २०; भाश्रौ ४, ९,  
 १; हिश्रौ ६, २, १२; -नेषु माश्रौ  
 १, ४, १, १६; वाश्रौ १, १, २, २३.  
 ?परिधे<sup>a</sup> काय ४१, ६१.  
 परि-हित, ता- क्तः आपश्चौ १,  
 १४, १२; भाश्रौ १, ११, १;  
 हिश्रौ १, ४, १०; -तम् वैश्रौ ५,  
 ७ : २; आपगृ १०, १०; वौगृ  
 २, ५, १२; भागृ १, ६ : १; वौघ  
 १, ६, १४; -तस्य कौसू ६३, १३;  
 -ता अत्र १२, ५१; -ताः वैश्रौ  
 १४, १ : ३; कौसू २१, १३; -ताम्  
 भागृ १, १३ : ८; -तासु वौश्रौ ४,  
 ७ : ७; १८, २२ : २; -ते आश्रौ ४,  
 ६, ३, ५, १, १; ६, ९, १; वौश्रौ १०,  
 ५७ : ४; ११, ३ : २ × ×; वैश्रौ.  
 परिहित-वासस<sup>b</sup> -ससम् काय  
 ४१, ७.  
 परि/घाव् (गतीं), परिधावति शाश्रौ  
 १२, २४, ५१; अप २०, ७, ८; ३५,  
 १, १५; परिधाव ऋप्रा ८, ४४१;  
 परिधावेत् शंघ ७८.  
 १परि-धि- परि/घा द्र.  
 २परिधि<sup>c</sup> - (>पारिधय- पा.) पाग  
 ४, १, १२३.  
 परि-धित- परि/घा द्र.  
 णपरि/धी, | = /घा| परि...धीमहि  
 वौश्रौ ३, ९ : ९; परि(धीमहि)आश्रौ  
 ५, १३, ६; ८, १२, ७; आपश्चौ.  
 परि-धीयमान- प्रगृ. परि/घा द्र.  
 ?परिध्यापकवर्जित- -ताः काय ७  
 ४० : १६.  
 परि/ध्वंस> परि-ध्वंस<sup>d</sup> -साः

आपघ २, २, ७.  
 परि-नक्षत्र- -त्रम् वौश्रौ २०, १ : १५.  
 परिनट<sup>e</sup> - पा, पाग ८, ४, ३९.  
 परि/नद्>परि-न(द)>दीध-  
 -दीनाम् आपश्चौ १८, १३, ९.  
 परि/नन्दु>परि-नन्दन- पा, पाग  
 ८, ४, ३९.  
 परि-नि/घा>परिनि-घाय काश्रौ  
 १८, ६, १३.  
 परि-नि/नी, परिनिनयेत् काश्रौसं  
 ३२ : १३.  
 परि-निर्/मा>परिनिर्-मित--०त  
 विध ९८, ११.  
 परि-निर्/हन्, णपरिनिर्जहि अप्राय  
 २, ५; अप ३७, ५, ३.  
 परि-नि/प(<स)द्>परिनि-पद्य  
 वाधूश्रौ ४, २६ : २८; २९; ३१;  
 ३३; ३५.  
 परि-नि/घा( <स्था )>परिनि-  
 घाप्य वौश्रौ २०, ८ : ३७; १६ :  
 ५९; २४, १५ : १२; १७ : १५.  
 परिनि-घाय निसू ४, २ : २५.  
 परिनि-घित- -ते वौश्रौप्र ५४ : ६.  
 परिनिघित-कर्मन्<sup>b</sup> -र्माणः वृदे  
 ३, ८४.  
 परि-निसू/स्था, परिनिस्तिष्ठेत् वौश्रौ  
 २०, ४ : १९; २०; १० : १३ × ×.  
 परि-नि/हन्, परिनिहन्ति वैश्रौ १८,  
 १७ : ५२.  
 णपरि/नृत्, परिनृत्यति अपं ३ : ३०;  
 परि(नृत्यति) अत्र ४, ३८;  
 परिनृत्यन्ति<sup>c</sup> आपश्चौ २१, १९,  
 १८; वौश्रौ १६, २२ : ८;  
 (परि)नृत्यन्ति तैप्रा ७, १६.

परि-नर्तन- पाग ८, ४, ३९.  
 परि-नृत्य(त् >)न्ती- -न्तीः<sup>d</sup>  
 हिश्रौ १६, ६, ३९.  
 परि-न्य(नि/अ)सू(क्षिपरो)>परिन्य-  
 स्य वौश्रौ ४, ४ : ३५; ६, २७ : १०.  
 परि/पच्>परि-पाक- -कः अप २३,  
 १२, २.  
 परि/पद्>परि-पाटि<sup>e</sup> -टिम् मैथ  
 ५.  
 परि/पट् परिपट्यवे अप २३, ३, १;  
 ५, ५; वौघ १, ४, २.  
 परि/पत्, णपरिपातय आपमं १, ९,  
 १०; हिगृ १, १८, ५.  
 णपरि-पति<sup>f</sup> - -तये वौश्रौ ६, १९ : १;  
 माश्रौ २, २, १, २; वाधूश्रौ ४, ५४ :  
 ३; वैताश्रौ १३, १६; -तिः वाधूश्रौ  
 ४, ५४ : ४९; चाश्र २ : ११; -तिम्  
 आश्रौ ३, ७, ८; वौगृ ४, ४, ११;  
 शुभ्र ४, २६; या १२, १८१.  
 परि/पद्, परिपादयन्ति ऋप्रा १४,  
 ३७; परिपादयै निसू ३, २ : २.  
 परि-पङ्ग<sup>g</sup> - -न्नम् ऋप्रा ४, १५;  
 १५, १२.  
 परिपङ्गा(न्न-अ)पवाद- -दः  
 ऋप्रा ४, २३.  
 परिपङ्गो(न्न-उ)पघा- -घा ऋप्रा  
 ५, २५.  
 परि/पन्थु<sup>h</sup> (\*वाधायाम्)>परि-  
 पन्थिन्<sup>i</sup> - पा ५, २, ८९; -न्थि  
 अप १, ४८, ५१; -णन्थिनः वौश्रौ  
 ६, १६ : ६; आपमं १, ६, १०<sup>m</sup>;  
 आगृ; कौगृ १, ९, १०<sup>m</sup>; काय  
 २५-२६, ५<sup>m</sup>; -न्थिनम् आश्रौ  
 ५, ३, २२१.

a) शोषः पृ १५१६ h द्र. । b) विप. । वस. । c) व्यप. । व्यु. ? । d) विप. >नाप. । उप.  
 कर्तारि कृत. । e) सपा. हिध २, १, २९ वर्णपरिध्वंसाः इति पाभे. । f) तु. पागम. । g) = २अप्- । h) सपा.  
 हिश्रौ १३, ५, १४ स्रवन्तीनाम् इति पाभे. । i) सपा. णन्ति<>न्तीः इति पाभे. । j) = परम्परा- । उप. भाप. ।  
 k) वैप १ द्र. । l) = संज्ञा-विशेष- । m) पाभे. वैप १, १९३८ ७ द्र. ।

परिपन्थि-नाश(न>)नी<sup>१</sup>- नी  
अत्र १४, २.  
परि-पन्थ<sup>२</sup>->परिपन्थिक- पा ४,  
४, ३६.  
परि√पञ्, परिपश्यते वौश्रौ १७,  
४२: ६; परिपश्यति आमिगृ १,  
३, ५: ७; परिपश्यन्ति वौश्रौ  
१५, २९: १६; हिश्रौ ९, ४, १०;  
पर्यपश्यत् आपश्रौ ५, २, ४;  
वौश्रौ ३३, ३२: ९; ऽवाधूश्रौ ४,  
३०: ५; १०९: ४; वाश्रौ १,  
४, २, २; वैश्रौ १, ७: ९; या  
१०, १२; पर्यपश्यन् वाधूश्रौ ४,  
१९: १३; १६; २०×४; परि-  
पश्येत् आपश्रौ १३, १४, ३;  
वौश्रौ ८, १४: १०; माश्रौ.  
परि-पश्यत्- इयत: वौश्रौ १७,  
४२: ६; भागृ २, २२: ८.  
परि-पश(व्य>)व्या<sup>३</sup>- न्ये काश्रौ  
२०, ६, ११; पागृ ३, ११, ३.  
परि√पा( रक्षणे ), परिपासति<sup>४</sup>  
आमिगृ ३, ५, ४: १७; वौपि १,  
३: २६; परिपातु वौश्रौ १३,  
४२: ११; अप १, ३७, ४;  
३२, १, ११; अशां ७, ४; १८,  
२; या ९, १५; परिपातु<sup>५</sup>  
अप्राय २, ५; अप ३७, ५, ६;  
परि(पातु) अत्र १९, ३५<sup>६</sup>;  
परिपातु आगृ २, ४, १४;  
पागृ ३, ३, ६; भागृ २, ८, ६<sup>७</sup>;  
परिपाहि पागृ २, ६, ३१<sup>८</sup>; कौसृ  
११४, २; १२८, २; अप ३७,  
१, ५<sup>९</sup>; परि(पाहि) अत्र २,  
७<sup>१०</sup>; परिपातम् अप्राय ६, ११<sup>११</sup>.

परि-पाण<sup>१</sup>- णम् अप ४६, ५, १;  
अत्र ४, ९.  
परि-पाद- पागवा ६, २, १८४.  
परि-पार्श्व<sup>२</sup>- इवेषु काश्रौ २४, ६,  
२२.  
परि√पालि(<पाल-), परिपालय  
भागृ २, ३१: ८; परिपालयेत्  
विध ३, ६५.  
परि-पालय आमिगृ ३, ९, ३: १६;  
वौपि २, ७, १५; वौध १, १०,  
१६.  
परि√पू, परि(पुनन्ति) छसृ २,  
४: १४; ५: १३; सात्र १,  
५५२; २, ६७९.  
परि-पवन<sup>३</sup>- ननम् या ४, ८; -नेन  
या ४, ९<sup>४</sup>.  
परि-पू( त> )ता- ताभिः शोध  
५६.  
परि-पूर्व<sup>५</sup>- र्वैः अप्रा ३, १, ७; -र्वम्  
दंवि २, १०<sup>६</sup>; -र्वै उस् ६, ३.  
परि√पृच्छ, परिपृच्छति कौगृ २, ७,  
१९; अप २५, १, १; २९, १, १;  
३०, १, १; ७०<sup>७</sup>, २२, १; आज्यो  
१, १; पर्यपृच्छत् अप ३१, ४, १;  
७०<sup>८</sup>, १, १; परिपृच्छेत् आगृ १,  
२३, २१; भागृ १, ११: ८.  
परि-पृच्छक- कः काश्रु ७, ३.  
परि-पृष्ट- ष्टः अप १९<sup>९</sup>, १, २; ६६,  
१, ३.  
परि√पृ, परिपूरयेत् अप १०, १, १२.  
परि-पूरित- ते अप १८, १, ६.  
परि-पूर्ण, पूर्णा- र्णाः वैगृ १, ७:  
१२; -र्णाय कौसृ १२२,  
२<sup>१०</sup>.

परिपूर्ण-मरीचि-जाल<sup>६</sup>- लः  
अप २४, १६, ३.  
परि√पृ (l<√स्पृ \*हिंसायाम्)>  
परि-परित्<sup>७</sup>- पा ५, २, ८९; -री  
वौश्रौ ६, १६: ६<sup>११</sup>.  
परि-प्र-ऋषी(षि-इ)न्द्रा (न्द्र-आ)दि-  
-दिषु ऋषा ५, ४३.  
परि-प्र√गा, परिप्रागात् आपश्रौ  
१६, ६, ७; वैश्रौ १८, ४: ९;  
हिश्रौ ११, १, ७३; अप ३९, १,  
३.  
परि-प्र√गृह्, परिप्रगृह्णाति आपश्रौ  
१२, २६, १६; माश्रौ १, ३, ३, ९.  
परि-प्र√धन्, परिप्रधन्व लुसृ १,  
५: २; १०; ६: १; ८; ९: १४;  
१०: ११; परि...प्रधन्व,>  
न्वा आपश्रौ १६, १८, ७; वैश्रौ  
१८, १६: १; हिश्रौ ११, ६, २९;  
ऋषा ८, १४; परि(प्रधन्व)  
ऋषा २, ९, ११०; सात्र १,  
४२८; २, ७१४; उनिसू ५: ७.  
परि-प्र√स्यन्, परिप्रस्यन्दते  
वौश्रौ २८, १: २०; २: २६;  
वैश्रौ २०, ३३: ११.  
परि-प्रो(प्र√उ)क्ष्, परिप्रोक्षेत् भागृ.  
२, ५: ३.  
परि√प्लु, परिप्लवते शाश्रौ १६, २,  
३६; परिप्लवेत् कागृ १, २३.  
परिप्लावयति माश्रौ २, ३, ४, ४;  
१०; वैश्रौ; परिप्लावयन्ति वौश्रौ  
७, ६: ८.  
परि-प्लुम्- पाग ५, ४, ३८<sup>१२</sup>; -वे  
वौश्रौ ६, ६: २४; -वेभ्यः वौगृ  
२, ८, ३३<sup>१३</sup>.

- a) पयना<sup>०</sup> इति पाठः? यनि. शोधः । b) अस. वा तस. वेति नागेशः । c) वैप २, ३खं. द. ।  
d) पाभे. वैप १, १९३९ b द. । e) पाभे. वैप १, १९३९ a द. । f) पाभे. वैप १, १९९० I द. । g) वैप १  
द. । h) विप. । प्रास. । i) = चालनी- । उप. करणे प्र. । j) विप. । वस. । k) विप. । वस. > पस. ।  
l) पाभे. वैप १, १९३९ n द. । m) विप., नाप. । वैप १ द. । n) = चक्षल- इति पागम. ।



परिप्लवा<sup>a</sup>- -वया आपश्रौ  
१२, १८, ५; ११; २०, २०<sup>३</sup>;  
माश्रौ; -वा हिश्रौ ८, १, ३४;  
-वाम् काश्रौ ९, २, १५; आपश्रौ  
१२, २, ७; माश्रौ २, ३, १, १८;  
४, २, ३; वैश्रौ १५, २: १४;  
हिश्रौ ८, १, ३१; -वायाम् काश्रौ  
९, २, १७.  
पारिप्लवा<sup>b</sup>- पा ५, ४, ३८<sup>c</sup>; -वम्  
आश्रौ १०, ६, १०; शाश्रौ १६,  
१, २२; २, ३६; काश्रौ २०, २,  
२२; आपश्रौ २०, ६, ७; काठश्रौ  
११७; वाश्रौ ३, ४, १, ३५<sup>d</sup>;  
हिश्रौ १४, २, १५; १८; लाश्रौ  
९, ९, १०; -वे हिश्रौ १४, २,  
१६; -वेन काठश्रौ १२८.  
पारिप्लवा(व-आ)ख्यान-  
-नाय वैताश्रौ ३६, २२.  
पारिप्लवा(व-अर्थ) > )र्थ<sup>e</sup>-  
-र्या: हिश्रौ १, १, २०.  
पारिप्लवीय- -यै: शाश्रौ १६,  
१०, १३.  
परि-प्लावयत्- -यन् आपश्रौ १२,  
९, ८.  
परि-प्लावित- -तानाम् शंथ १७६.  
परि-प्लाव्य वाश्रौ १, ६, ७, ५; आपश्रु.  
परि-प्लु<sup>f</sup>- -प्लु वौश्रौ ७, ७: २३;  
८, २: ४; -प्लुना वौश्रौ ७, ८:  
१९; १२: १८x४; वैश्रौ.  
परि-प्लुत्य वैश्रौ २१, १६: ८.  
परि/वन्ध् > वध्, परिवेधिरे दंवि  
२, ४<sup>†</sup>.

परिवन्ध्व<sup>g</sup>- -व: अर्प १: १.  
परि/वाध्, परिवाधते आमिगृ १, ५,  
२: ४; वौगृ १, ३, ३७;  
परिवाधन्ते हिश्रौ ८, ४, ५१;  
†परि(वाधस्व) काश्रौ ७, ९, १;  
शुअ १, २८२; परिवाध आमिगृ  
१, ५, २: ५; परिवाधत् आपश्रौ  
१२, १७, १०<sup>†</sup>; माश्रौ २, ३, ६,  
११.  
†परि-वाधमान, ना- -न: या ९,  
१५<sup>†</sup>; -ना आपमं २, २, ९;  
कौगृ.  
परि/वृह्, वृह् > परि-वर्हण- -णात्  
या ७, १२; ८, ८.  
परि-वर्हणा- -णा या ६, १८.  
परि-वृंहित- -त: -तम् वृदे ३, ५.  
परि-वृढ- -ढम् वाधुश्रौ ४, ७०: १६  
परि/व्यू, परिव्यूयात् वैश्रौ २१, ६:  
९; हिश्रौ १५, ५, २४; अप्राय  
६, ६.  
परि-भक्ष<sup>h</sup>- -क्षम् आपश्रौ १४, ३१,  
९; द्राश्रौ ७, २, १; लाश्रौ ३,  
२, १<sup>†</sup>.  
‡परिभव<sup>i</sup>- -व: वौश्रौप्र २३: २.  
परि-भारुड<sup>j</sup>- -ण्डम् आपध २, १४,  
८; हिध २, ३, १९.  
परि/भाष्, परिभाष्यते अश्र १, ३;  
३२.  
परि-भाषा- -पा पावा १, ३, ११;  
-पाया: पावा १, १, ६९.  
पारिभाषिक<sup>k</sup>- -क: कप्र ३, ७,  
७; -कम् अश्र १, ३२; ५, ७;

११, २.  
परि-भाषित- -तम् शुअ ४, १६०.  
परि-भाष्य वाध १३, ४९.  
परि/भी > परि-भय- -ये या १,  
१०.  
परिभया(य-अ)र्थ- -थे या ९,  
३०.  
परि/भुज्, परिभुज तैप्रा १४, ८<sup>†</sup>.  
परि-भुक्त- -क्तानि वौगृ १, ८, ९.  
परि-भोजन- > णीय- -यम् वैश्रौ  
३, ४: १७; -यान् वैश्रौ ५, ९:  
७; -यानि वौश्रौ १, २: २४;  
परि/भू<sup>l</sup>, परिभवन्ति या १४, २१<sup>†</sup>;  
†परि...भवन्तु वौश्रौ ६, २७:  
२१; आपमं १, २, ६; आमिगृ  
१, २, ३: ९; †परि(भवन्तु)  
आश्रौ ४, ६, ३; ९, ६; शाश्रौ ५,  
९, १२; १३, १०; काश्रौ;  
पर्यभवत् या १०, १०; परि...  
अभवत् वौश्रौ १४, १२: ३१<sup>†</sup>;  
परिभवत् भाग २, ६: १४.  
परिवभूव या १०, ४३; †परि  
...वभूव वौश्रौ १, २१: २५<sup>m</sup>;  
१८, ४१: ३; आमिगृ<sup>n</sup> १,  
५, ४: १३; ३, २, २: १०;  
जैगृ १, ४: १४<sup>m</sup>; या १०, ४३<sup>m</sup>.  
२परि-भव- पा ३, ३, ५५; -वम्  
भाग २, ३१: १०<sup>†</sup>.  
परि-भविन्- पा ३, २, १५७; पाग  
३, १, १३४.  
परि-भाव- पा ३, ३, ५५.  
परि-भाविन्- पाग ३, १, १३४.

a) = (द्रोणकलाशात् सोमप्रहणार्थ-) दर्वी- (तु. विद्याधर: [काश्रौ.] । b) = शस्त्र-, आख्यान- प्रभु.  
वैप २, ३खं. द्र. । c) स्वार्थे अण् प्र. । d) परि° इति पाठ: ? यनि. शोध: । e) विप. । वस. । f) = परिप्लवा- ।  
उप. डु: प्र. उखं. (पाठ १, ३६) । g) = ऋषि-विशेष- । च्यु. ? । h) = स्वामिं वर्जयित्वाऽन्यदीययागे सोमभक्षण-  
उपचारात् तन्निमित्त-प्रायश्चित्त- । सुष्ठुपीय: समास: । i) अपरि° इति अत्रिस्वामी? ( तु. ० [आपश्रौ.] ।  
j) = गृहोपकरण- । भारुडेन परिगृहीत- इति प्रास: । k) तात्रभविकम् ठक् प्र. । l) वैप १ द्र. । m) पामे.  
वैप १, १३४३ गृ द्र. ।

†परि-भू<sup>०</sup> - भुवः वा १४, २१;  
-भूः आश्रौ १, ३, ६; शांश्रौ १,  
४, २१; आपश्रौ.

परिभू-तम- -मम्<sup>०</sup> आपश्रौ १६,  
३५, ५; वाश्रौ २, १, ८, १६;  
हिश्रौ ११, ८, २३.

परि-भूत- -तः अप ७, १, २; -तम्  
भाट २, ३१ : १२†; -तानि  
शंघ २३०.

†परि/भूप<sup>०</sup>, परि...भूपयः कौस  
५, २; तैप्रा ८, ३४; पर्यभूपत् वा  
१०, १००†; परि (अभूपत्) वौश्रौ  
१८ १७ : २४.

परि-भूपित- -तम् अप १८, १, ६.

परि/भृ, †परि(भरत्) ऋअ २, १,  
५२; साअ १, ४९६.

परि/भ्रंशु > परि-भ्रष्ट- -ष्टः अप  
४२, २, १३.

परि/भ्रम्, परिभ्रामयेत् अप ७,  
१, ८; १८, ५, १.

परि-मण्डल, ला<sup>०</sup> - पा ६, २, १८२;  
पाण ५, १, १२४; -लः हिश्रौ  
१२, ८, ८; १५; वाट ५, २८;  
वौशु १८ : ८; हिशु ४, ३१;  
-लम् काश्रौ १६, ५, १; आपश्रौ  
१५, १४, ९; १६, १४, १<sup>०</sup>××;  
वौश्रौ; -ला आपशु ७, ३; वौशु  
७ : ६; हिशु २, ५१; -लाः  
आपश्रौ १७, २१, ५; १९, ११,  
६; वौश्रौ; -लान् वैश्रौ १४,  
१२ : ४; हिश्रौ ७, ७, २७;  
-लानि हिश्रौ १२, ८, ९; कौस;  
-लान्याम् काश्रौ १६, ५, ३;  
-लान् आपश्रौ १६, ४, ७;  
काठश्रौ २८; वौश्रौ; -†लायाम्

वौशु ७ : ११; -ले काश्रौ १३,  
३, ९; २६, १, २१; आपश्रौ.

परिमाण्डल्य- पा ५, १, १२४.

परि/मद् > परि-माद्<sup>०</sup> - मादः  
द्राश्रौ १०, १, १; लाश्रौ ३, १,  
१; निशु १, १३ : ३.

परि-माद्<sup>०</sup> - दान् शांश्रौ १७,  
१२, ४.

परि-मर्शन- परि/नृशु द्र.

परि/मा (माने), परिमिमीते आपश्रौ  
७, ३, १२; वौश्रौ ४, २ : ६; २६;  
भाश्रौ; परिमिमीत वौश्रौ २०,  
२६ : ८.

†परि...ममे आपश्रौ १६, ११,  
१२; वैश्रौ १८, १० : ६; हिश्रौ  
११, ४, १२; निशु ३, ९ : ४०<sup>१</sup>.

परिमापयेत् भाट २, ४ : १३.

परि, री<sup>०</sup>]-माण- -णम् काश्रौ १,  
३, १३; आपशु १, १९; अप्रायः

पा ५, १, ५७; -णस्य वृदे ५,  
१५४; पा ७, ३, २६; -णात्

तैप्रा २३, २; पा ४, ३, १५६;  
पावा ४, ३, १५४; -णे काश्रौ

२२, १, १६; वौश्रौ २०, २६ : ७;  
शुप्रा २, २८; पा ३, २, ३३;

३, ६६; ४, ३, १५३; ५, २, ३९;  
-णेन आपध १, ३०, २; -णेषु

हिश्रौ २१, २, ६.

परिमाण-प्रहण- -णम् पावा १,  
३, १.

परिमाण-ज्ञ- -ज्ञः काशु ७, ३.

परिमाण-तत्तः(ः) नीसु १, २, १७.  
परिमाण-विरोध- -धात् नीसु  
११, १, ६२.

परिमाण-विहार- -रान् वौशु १ : १.

परिमाण-शब्द- -द्दानाम् पावा  
५, २, ४५.

परिमाण-शास्त्र- -स्त्रम् नीसु  
१०, ५, २१.

परिमाणा (रा-आ) ख्या-  
-ख्यायाम् पा ३, ३, २०; पावा  
३, ३, ३६.

परिमाणा(रा-अ)न्त- -न्तस्य पा  
७, ३, १७; पावा ७, ३, १५

परिमाणा(रा-अ)भाव- -वात्  
वौशु ६ : १७.

परिमाणा(रा-अ)र्ध- -र्धम् अप  
३ : ३; पावा १, ४, १३××.

परिमाणा(रा-आ) ह्वान- -नम्  
द्राश्रौ १, ४, २८; लाश्रौ १, ४, २३.

परिमाणिन्- -णिना पा २, २,  
५; पावा २, १, ५१; -गिति

पावा ५, १, ५८; ५९.

परि-माय भाश्रौ ५, २, १२, ५.

परि-माय्य- -य्यम् सु १५, १.

परि-मित, ता- -तम् काट ४, ९;  
-ता वा १३, ९†; -†ताः आश्रौ

१०, ५, १६; आपश्रौ १, ५, ५;  
भाश्रौ; -तानाम् आश्रौ १०, ५,

१६; -तानि वौध २, १०, ६६††; वा  
१३, ९; -ते शाश्रौ ४, १५,

८<sup>१</sup>; हिश्रौ १०, ३, २.

परिमित-काल<sup>१</sup>- -लम् अप ७२,  
४, ७.

परिमित-शस्य<sup>१</sup>- -स्यः आश्रौ  
५, १५, १५; शांश्रौ ७, २१, ७.

परि-मार्जन- प्रनृ. परि/नृशु द्र.  
परि/मि (प्रक्षेपणे), परिमितोति

आपश्रौ १३, ७, ७; परिमितुयात्  
हिश्रौ ११, ६, ५९.

a) वैप १ द्र. । b) पामे. वैप १, १९४१ k द्र. । c) प्रात्. वा वत्. वा । d) वा. क्रिवि. ।

e) वैप २, ३६. द्र. । f) वैप १, १९४२ g द्र. । g) आपशु. आपध. तैप्रा. पाठः । h) नाप. । अर्थः ? = स्मशान-  
इति भाष्यम् । i) विप. । वस. । j) उप. <√शस् ।

परि-मित्व आश्रौ ७,४,२.  
 परि-मित- प्रसृ. परि√मा द्र.  
 परि√मिश्रि( < मिश्र- )>परि-  
 मिश्रि(त >)ता- -ता काशु  
 ७,१४.  
 परि√मिह् > ङपरि-मीढ- -ढः<sup>१</sup> पाशु  
 ३,७, २<sup>३</sup>; भाशु २, २७:१६<sup>३</sup>;  
 हिशु १,१४,२<sup>३</sup>.  
 परि-मुख- पावाम ४,३,५८.  
 पारिमुखिक- पा ४,४,२९.  
 पारिमुख्य- पावा ४,३,५८.  
 परि√मुच्, परिमुच्यन्ते कौसू १३९,  
 २८; परिमुच्येय सु १०,४.  
 परि-मु(क्त>)क्ता- -क्त्याम् भाशु  
 १,२५:१५.  
 परि-मोक्ष- -क्षः माशि १५, ६;  
 नाशि २, ८, १०; -क्षम् कौसू  
 १३९,२८; आपध २,२१, १२;  
 हिध २,५,१२१.  
 परि√मुष् > परि-मोष- -पः वौश्रौ  
 १७,५०:२.  
 परि-मोषण- -णम् आपध २, २८,  
 ११; हिध, २,६,११.  
 परि√मुह<sup>b</sup>, परिमोहयन्ति कौसू १३५,  
 ९.  
 परि-मोहिन्- पा ३,२,१४२.  
 परि√सृ > परि-सृ(र्षा>)र्षी<sup>c</sup>- -र्षी  
 काश्रौ १५,३,२०.  
 परि√सृज्, परिमाष्टि माश्रौ १, २,  
 ३,२३; ६,१,९; ४,१, २८; २,  
 १४; वाश्रौ; परिमृजीत वाश्रु ५,  
 ३३; ३५; गोश्रु; परिमृज्यात्  
 माश्रौ ३,१, २; वाध १२, १५;  
 विध ७१, ३८; गौध १, ३९;  
 परि...मृज्युः वाधूश्रौ ३, ९:

१०:११; १३.  
 परिमृजति आग्निश्रु २, ६, १:  
 १३;१४; परि...मृजन्ति वाधूश्रौ  
 ३, ९:१२; परिमृजामि वैश्रु  
 १, ९:११; १३-१५; परि...  
 परिमृजामि आपमं २, ६, १;  
 परि(परिमृजामि)आपश्रु ११, २२;  
 परिमृजेत् वौश्रु १, २, ३२; ४२;  
 वाश्रु.  
 परि-मार्जन- -नम् वाश्रौ ३, २, ७,  
 ६४; हिश्रौ ८, ४, १३; शंघ;  
 -नात् शंघ ४५७:९.  
 परिमार्जन-द्रव्य- -व्याणि वौध  
 १, ६, ३६.  
 परिमार्जन-प्रदाह-तक्षण-निर्णे-  
 जन- -नानि गौध १, ३१.  
 परिमार्जन-प्रभृति- -ति काश्रौ  
 १२, ६, २५.  
 परि-मार्ज्यं जैश्रु २, ६:३.  
 परि-मृजान- -नः हिध २, १, १०१<sup>d</sup>;  
 परि-मृज्य आश्रौ ८, १४, १४; काश्रौ  
 ९, ४, २७; आपश्रौ; या ७, २३;  
 परिमृज्यऽपरिमृज्य काश्रौ ९, ५,  
 २३.  
 परि-मृष्ट- -ष्टम् आपध १, १७, ११;  
 हिध १, ५, ४३; -ष्टानाम् वौध  
 १, ६, ३५; -ष्टे कौसू ७३, ९.  
 परि√मृश्र्, परिमृशति वौश्रौ ४, ४:  
 २६<sup>f</sup>; माश्रौ ७, ८, ६; वैश्रौ;  
 परिमृशेत् वौश्रौ २१, १४:२४;  
 २६.  
 परिमाश्रुः ऋश्रा ९, २६<sup>f</sup>.  
 परि-मर्शन- -नेन वाधूश्रौ ३, १०६:  
 ४.  
 परि-मृशत्- -शन् भाश्रौ ७, ८, ५.

परि-मृश्य काश्रौ ६, ३, ५; वैश्रु २,  
 १६:३.  
 परि√मृष् पा १, ३, ८२.  
 परि-मोक्ष- परि√मुच् द्र.  
 परि-मोष- -ण- परि√मुष् द्र.  
 परि√यज्, परियजति काश्रौ १०, ६,  
 ८; आपश्रौ १३, १३, २०; वौश्रौ  
 ८, १४:८; वाधूश्रौ ३, १३:१७;  
 परियजन्ति आश्रौ ५, १९, २;  
 परियजेत् लाश्रौ ८, ११, १२;  
 ९, ४, १; २.  
 परियक्ष्यसि वौश्रौ ८, १४:११<sup>f</sup>;  
 परियक्ष्यसी ३ वौश्रौ ८, १४:२१<sup>f</sup>.  
 परि-यष्ट- -ष्टुः वौश्रौ २७, ५:९.  
 परी(रि-इ)ष्ट- -ष्टः वौश्रौ १८, ५१:  
 १७; २६; वैश्रौ २०, २६:  
 ९; -ष्टस्य वौश्रौ २७, ५:९<sup>f</sup>;  
 परि-यज्ञ- -ज्ञः काश्रौ २२, १०, ९;  
 १२; १५; -ज्ञम् वेताश्रौ २७,  
 १७; -ज्ञाः काश्रौ १४, १, ९.  
 परि√यत् > परि-यत्त- -त्तः वौश्रौ  
 १३, १२:६.  
 परि-यत्- परी(रि√इ) द्र.  
 परि√या, परियाति आपश्रौ १४,  
 १२, ११<sup>b</sup>; हिश्रौ १०, ६, ९<sup>b</sup>;  
 कौसू १६, ४; ङपरि...याति  
 आपश्रौ १६, ६, ७; वाश्रौ २, १,  
 ५, २०; हिश्रौ ११, १, ७३;  
 परि(याति) वैश्रौ १८, ४:  
 ८<sup>f</sup>; ङपरियाहि दाश्रौ १०, २, ८;  
 लाश्रौ ३, १०, ७; परि...यातम्  
 या ३, २०<sup>f</sup>; परियायुः दाश्रौ  
 १०, २, ४; लाश्रौ ३, १०, ४.  
 परि-या(त् >)न्ती- -न्तीः वेताश्रौ  
 ३४, ९.

a) सपा. आपमं २, २२, ६<sup>३</sup> परिपीतः इति पामे. । b) पा १, ३, ८९ परामृष्टः द्र. । c) वैप २, ३ खं. द्र. ।  
 d) सपा. आपध २, ५, १९ परीवृजानः इति पामे. । e) =(सति ज्येष्ठे सोम-याजिन्-) कनिष्ठ-भ्रातृ- । f) =[परि-  
 अष्टरु]ज्येष्ठ-भ्रातृ- । g) =[प्रधानयज्ञायन्तभाविन्-] यज्ञ-विशेष- । प्रासं. । h) पामे. वैप १, १९५३ d द्र. ।

परि-याय वौश्रौ १८, १० : २२;  
१७ : २७.  
परि√यु > परि-युत- -तः या २, ८.  
परि√युज् > परि, लि-योग-  
पावाग ८, २, १८<sup>२</sup>.  
परि√रक्ष्, पर्यरक्षत् या १०, १०.  
परि-रक्षित- (>°तिन्- पा.) पाग  
५, २, ८८.  
परि√रट् > परि-राटक- पा ३, २,  
१४६.  
परि-राटिन्- पा ३, २, १४२.  
परि-रथ<sup>२</sup>- (>पारिरथ्य- पावा.)  
पावाग ४, २, ५८.  
परि√रम् पा १, ३, ८३.  
परि√\*राप्<sup>३</sup> > परि-राप्<sup>३</sup>- रापः  
ऋप्रा ९, ४८<sup>१</sup>.  
परि√रिह् (=√लिह्), परिरेरिहस्व  
कागृ ४१, ११<sup>१</sup>.  
परि√रुज् > परि-(रुजत्-जन्) अश्र  
१६, १<sup>१</sup>.  
परिलि<sup>४</sup>- (>पारिलि- पा.) पाग ४,  
१, ११२.  
परि√लिख्, परिलिखति काश्रौ ६,  
२, ८; ७, ६, १७; १६, २, २३;  
आपश्रौ; परिलिखेत् काठश्रौ  
९२; वौश्रौ.  
परि-लिखत्- खतः वौश्रौ २६,  
२४ : ४; -खन् वौश्रौ २०,  
२६ : २.  
परि-लिखित, ता- -तम् आपश्रौ  
७, ४, २; १०, २३, २; ११, ११,  
२; वौश्रौ; -ताः आपश्रौ ७,  
४, २; १०, २३, २; १६, ११, २;  
वौश्रौ; -ते वाध १३, १२.  
परि-लिख्य काश्रौ ८, ८, ११; आपश्रौ.

परि-लिख्यमान- -नम् वैताश्रौ २८,  
८.  
परि-लेखन- -नः आपश्रौ ७, ९, ७;  
१४, ५, १६; हिश्रौ ९, ८, १०;  
-नम् वौश्रौ २०, २६ : १०××;  
हिश्रौ ७, ६, २; ७, ४; -नात्  
काश्रौ ८, ५, १; -ने वौश्रौ २०,  
२ : २४; २६ : १××.  
परि√लिप्, म्प्, परिलिम्पेत् वौश्रौ  
२०, १६ : ५६.  
परिलिपयति वौश्रौ २, १६ : ६;  
१०, १९ : १५.  
परि-लिप्त- -त्ते कौस् ७३, ९<sup>१</sup>.  
परि-लिप्य वौश्रौ २३, ८ : १२;  
१३××; वैश्रौ.  
परि-लेपन- -ने वौश्रौ २०, १६ :  
५५.  
परि√लुप्, परिलुप्यते हिश्रौ २, ७,  
६८; ऋप्रा २, ११; परिलुप्येरन्  
मीस् १२, ४, २९.  
परि-लुप्त->°स-कृत्य<sup>५</sup>- -त्याय  
वाध २, ४३; वौध १, ५,  
८१.  
परिवंश- (>°शक्- पा.) पाग ४, २,  
८०.  
परि√वच् > परि-वाचन- >°ना-  
(न-अर्थ)- -थानि निस् ६, ९ :  
४.  
पर्यु(रि-उक्त) >°क्ता- -क्ता अश्र ४,  
१९<sup>१</sup>.  
परि-व(त्) >°ती<sup>६</sup>- -त्यः निस् २, ११;  
१५; -त्या निस् ८, ६ : ३०.  
परि-वत्सर<sup>७</sup>- पाठभो २, ३, ७०; -रः  
आपश्रौ १७, १३, २<sup>१</sup>; १९, १२,  
२३; वौश्रौ; -रम् वैगृ ५, ७ : ५६;

-राः आपश्रौ ८, २१, १, वौश्रौ  
५, १८ : २०; माश्रौ १, ७, ८, ८;  
वाश्रौ १, ७, ५, ४; हिश्रौ ५, ६,  
४; -राय माश्रौ १, ६, ४, २१;  
वाश्रौ १, ५, ५, ७; वैताश्रौ; -रे  
आपश्रौ १६, ३१, १; वैश्रौ १८,  
२० : ४९; हिश्रौ ११, ८, ४;  
निस् ५, १२ : १९; -रेभ्यः वैगृ  
२, १२ : ११.  
परिवत्सरा(र-अ)न्त- -न्ते वैगृ ५,  
१५ : ११.  
परिवत्सरीण, णा<sup>८</sup>- पा ५, १, ९२;  
-णाम् आपमं २, २०, ३४;  
आग्निगृ ३, २, २ : ५<sup>१</sup>; भागृ २,  
१५ : ७; हिगृ २, १४, ४<sup>१</sup>;  
-णाम्<sup>१</sup> आपश्रौ ८, ७, ८; वौश्रौ  
५, ९ : ३३; १४, ३० : ३; भाश्रौ.  
परिवत्सरीय, या- पा ५, १, ९२;  
-यम् भागृ २, ८, ४<sup>१</sup>; -य्या  
माश्रौ १, ६, ४, २१; वाश्रौ १,  
५, ५, ७; -य्याम् माश्रौ १, ७,  
४, ४९<sup>१</sup>.  
परि√वद्, णपरिवदन्ति आपश्रौ  
२१, ११, १३; हिश्रौ १६, ४, ३३;  
द्राश्रौ ९, ४, १६; परिवदेयुः  
हिश्रौ १६, ४, ३५.  
परि, री<sup>९</sup>-वाद- -वः वौश्रौ १८, ३४ :  
२१; -णदम् आपमं १, १३,  
५; वौगृ ४, २, ११; भागृ  
२, ३१ : १० अय १, २६, ४;  
वौधः -दान् आपध १, ३१, ८;  
हिगृ १, ८, २६.  
परि-वादक- पा ३, २, १४६.  
परि-वादित- (>°तिन्- पा.) पाग  
५, २, ८८.

a) तु. पागम. । b) वैप १ द्र. । c) व्यप. । व्यु. ? । d) विप. । वस. । e) = ऋच्- । f) पाभे.  
वैप १, १९४४ d द्र. । g) पाभे. वैप १, १९४४ g द्र. । h) शोघः वैप १, १९४४ g द्र. । i) पाभे. वैप २,  
३ सं. तत्रा १, ४, १०, २ टि. द्र. । j) आपमं. आपध. हिघ. पाठः । k) पाभे. वैप १, १९४४ j द्र. ।

परिवंद्यतायाः<sup>a</sup> वाश्रौ ३, ३, १, ३६.  
 परि✓वप्, परि...वपते वौश्रौ ५, ४:  
 २५; ९: २६××; परिवपति माश्रौ  
 २, ३, ४, १८; वाश्रौ १, ६, ३, १६;  
 वैश्रौ १८, १२: ११; परिवप  
 पागृ २, १, २०; कौसू ५४, १.  
 परि [री<sup>b</sup>] -वाप- पागृ ४, २,  
 ८०<sup>२०</sup>; -प: आश्रौ १२, ८,  
 ३३<sup>१</sup>; आपश्रौ १२, ४, १३<sup>१</sup>;  
 काठश्रौ ११३; वैताश्रौ १६,  
 १७; शुप्रा ३, १२९<sup>१</sup>; -पम्  
 आपश्रौ १२, ४, ६; वौश्रौ ७,  
 १२: ४; २५, २०: ४; -पस्य  
 वौश्रौ ७, १२: ९; वैश्रौ १५,  
 २५: २; -पात् माश्रौ २, ४, ६,  
 २६<sup>१</sup>; -पाय माश्रौ २, ३, २,  
 २; ७, ८.  
 परिव्राप-मिश्र<sup>d</sup> -श्रस्य शाश्रौ  
 ८, २, १३.  
 परिव्राप-लाज- -जान् वैश्रौ १५,  
 ४: ६; हिश्रौ ८, १, ५०.  
 परिव्रापिक- , षिन्- पा ४, २,  
 ८०.  
 परिव्रा(प्य>)प्या<sup>e</sup> -प्यायै  
 काश्रौ ८, ९, २५.  
 परिव्रापण [न] -नम् माश्रौ १, ५,  
 १, ११; जैगृ १, १९: ७; आपघ  
 १, १०, ६; हिघ १, ३, ३५; -ने  
 पा ५, ४, ६७.  
 परिव्राप्य कौगृ २, १, २६; शांगृ २,  
 १, २६.  
 परिव्राप्यमान- -नाभ्याम् वाश्रौ

३, ४, ४, २४.  
 पर्यु(रि-उ)त,सा- -स: लाश्रौ १०,  
 १५, १६; -सा: वैश्रौ १८, १२:  
 १५<sup>१</sup>.  
 पर्युस-शिरस<sup>f</sup> -रसम् पागृ २,  
 २, ५.  
 पर्युसिन्- -सिन्म् वागृ ५, ६.  
 †परिवपस्वेदं वृञ्जन्तु<sup>h</sup> कौगृ ३, ५,  
 ४.  
 परिवपा<sup>i</sup> - > ञ्प्य<sup>j</sup> -प्य: हिश्रौ ९,  
 ८, ३७<sup>१</sup>; १३, १, २४<sup>१</sup>; -प्यम्  
 आश्रौ ७, २०, ९; २१, २;  
 भाश्रौ; -प्यौ शाश्रौ १५, १,  
 २६<sup>१</sup>; आपश्रौ १४, ७, ५; वाश्रौ  
 ३, ४, ४, २४; वैश्रौ १७, १०: ९;  
 मागृ २, ४, ६.  
 परिवप्य-महिम्न्- -मानौ  
 आपश्रौ २०, १९, २; ६.  
 परिवर्जित-, ष्वर्ज्यं परि✓वृञ् द्र.  
 परिवर्त- प्रथ्. परि✓वृत् द्र.  
 परिवर्त्मन्<sup>l</sup> - र्त्म<sup>m</sup> कौसू ४४, २९.  
 †परिवर्त्मन्<sup>n</sup> - र्मां द्राश्रौ १०, २, ७;  
 लाश्रौ ३, १०, ६.  
 परि✓वस(निवासे), परिवसति काश्रौ  
 १२, १, २१; परिवसन्ति वाघ  
 २६, १२; परिवसेत् भाश्रौ ७,  
 ४, ५; ६, १.  
 परिवसासेत् आगृ २, ८, ४.  
 परिवसास<sup>o</sup> -सम् हिश्रौ १२, ८,  
 २४<sup>१</sup>; -सा: निसू ६, ६: १.  
 पर्यु(रि-उ)पित- -तम् गोगृ ३, ५,  
 ९; जैगृ १, १९: २७; वाघ;

-ता: वौघ २, १, २१; -तै:  
 आपघ १, ११, ४; हिघ १, ३, ६१.  
 पर्युपित-भोजन- -नम् वौघ १,  
 १, १९.  
 पर्युपित-भोजिन्- -जी शंघ  
 ३७७: १६.  
 परि✓वस् (छेदने), परिवसायति  
 आश्रौ ७, २, १०; वौश्रौ ४, १:  
 २९××; भाश्रौ.  
 परिवसासन- > ष्ण-शकल- -लम्  
 आपश्रौ १, ६, ८; १३, १५;  
 वैश्रौ ३, ५: १०.  
 परिवसासित- -त: आपश्रौ १५, ५,  
 १९; भाश्रौ ११, ५, २१; हिश्रौ  
 २४, २, ६; -तानि वैश्रौ ३, ५:  
 ५; -तेन भाश्रौ ११, १०, २.  
 परिवसास्य काश्रौ ६, १, २३; ६, १२;  
 आपश्रौ.  
 परि✓वह्, परिवहति आपश्रौ १८,  
 १२, २; २०, १६; हिश्रौ १३,  
 ४, १६; ७, ५; परिवहन्ति  
 आपश्रौ १८, ११, ४; वौश्रौ ६,  
 १६: ९; परि...वहामि सु ७,  
 ५; ऋष्यवहन् आपमं १, ५, ३;  
 ८; १३; पागृ: परिवहेत् वौश्रौ  
 २१, १२: २४; २२, १७: १८;  
 परिवहेयु: माश्रौ ५, २, १०, २८;  
 वाश्रौ ३, ४, १, ५.  
 †परि...वक्षि<sup>o</sup> आपश्रौ १५, १४,  
 ४; वौश्रौ ९, १४: ११; भाश्रौ  
 ११, १४, ५.  
 परिवहण- -णे वौश्रौ २१, १२: २४.

a) पाठः? परिव्रातायाः इति शोधः (तु. संस्कृतैः टि., सप्र. आपश्रौ १८, १०, १४ वावातायै इति च) ।

b) काठश्रौ. वैताश्रौ. शुप्रा. पाठः । c) अर्थः? । d) पूष. = दधि- इति भाष्यम् । e) अर्थायै यत् प्र. ।  
 f) माश्रौ. पाठः । g) विप. । वस. । h) पाठः? सपा. शांगृ ३, ९, १ परि वः सैन्याद् वधाद् न्यावृञ्जन्तु इति ।  
 i) प्रास. । j) = (वपाहोमाद्यन्तभाविन्-) होम- । तस्येदमीयः यत् प्र. । k) ष्वा<sup>o</sup> इति पाठः? यनि. शोधः (तु-  
 C., आपश्रौ ७, २०, ९ च) । l) वैष १ द्र. । m) वा. क्वि. । n) भाप. । तु. काश्रौ २२, १, २१ । o) पाग्रे-  
 वैष १, १९४५ अ द्र. ।

ऋपरि-वाहि(न>)णी- णीः  
 आपश्रौ १८, १३, ९; वाश्रौ ३,  
 ३, २, १४; हिश्रौ १३, ५, १४.  
 पर्यु(रि-उ)ह्य काश्रौ १५, ४, ३;  
 आपश्रौ ११, १३, ७; काठश्रौ ९६.  
 पर्यु(रि-उ)ह्यमाण- णाय शांश्रौ ५,  
 ६, १; काश्रौ ७, ९, १३; -णे  
 काश्रौ १४, १, १६.  
 पर्यु(रि-उ)ह्यमान(न>)ना- ना या  
 १२, १११.  
 परि-वाचन- परि√वच् द्र.  
 परि-वाद्- प्रसृ. परि√वद् द्र.  
 परि-वाप-, षन- प्रसृ. परि√वप् द्र.  
 परि-वार- प्रसृ. परि√वृ(आच्छादने)  
 द्र.  
 परि-वास- परि√वल् (निवासे) द्र.  
 परि-वासन- प्रसृ. परि√वल्(छेदने)द्र  
 परि√विद् (ज्ञाने), परिवेद ऋश्रौ  
 १९, ७ : ५; २४.  
 परिवेदयन्ते आ १४, २२.  
 परि√विद् (लाभे), परिविन्दति बौध  
 २, १, ३९.  
 परिविद्यते शंघ ३९८; विघ ५४,  
 १६.  
 परि-वित्त<sup>a</sup>- -त्तः वैश्रौ २०, २६ :  
 ९; बौध २, १, ३९<sup>b</sup>; अप्रा २, ३,  
 १६<sup>c</sup>; -त्तस्य बौश्रौ २७, ५ :  
 ७; -त्ते बौध ४, ६, ७.  
 परि-वित्ति<sup>c</sup>- -त्तिः कप्र १, ६, २;  
 वाध १, १८; २०, ७; शंघ; -त्तिम्  
 वैगृ ६, १३ : ७.  
 परिवित्ति-ता- -ता विघ ३७,  
 १५; सुधप ८६ : १.  
 परिवित्ति-परिविविदान- नौ

कौसू ४६, २६.  
 परिवित्ति-परिवेत्त- -त्तारौ कप्र  
 १, ६, ३.  
 परि-विन्दत्- -न्दन् कप्र १, ६, ६.  
 परि-विल्ल<sup>d</sup>- -न्नः वैश्रौ २०, २६ : ९;  
 -न्नस्य बौश्रौ २७, ५ : ७.  
 परि-विविदान<sup>e</sup>- -नः वैश्रौ २०, २६ :  
 ९; वाध २०, ८; -नस्य बौश्रौ  
 २७, ५ : ८.  
 परि-वेत्त<sup>f</sup>- -त्ता वैगृ ६, १३ : ७;  
 कप्र १, ६, २; वाध.  
 परि-वेदन- -नम् विघ ३७, १६;  
 -ने अप २३, १२, ३; ४.  
 परि√विश, परिविशति आग्निगृ ३,  
 २, ३ : ११; ६ : १३ × ×; परि<sup>g</sup>  
 विशन्ति वाधूश्रौ ४, २६<sup>h</sup> : ३;  
 परिविशन्तु वाश्रौ १, ३, १, ५<sup>i</sup>;  
 पर्यविशन् वाधूश्रौ ४, २६<sup>h</sup> : १.  
 ऋपरिवेशय<sup>h</sup> माश्रौ १, २, ३, ४;  
 वाश्रौ १, ३, १, ५.  
 परि-विश्य आग्निगृ ३, २, ३ : ११;  
 ६-७ : १३.  
 परि√विष्, परिवेष्टि वैश्रौ १८,  
 १२ : ७<sup>i</sup>; हिश्रौ १०, १, २;  
 हिगृ १, २३, ५, २, १४, ८; परि<sup>g</sup>  
 वेष्टि वाधूश्रौ ४, २५ : ९; परि-  
 वेष्टिपन्ति आपश्रौ १०, ३, ७.  
 परिविष्ययाताम् अप ७२, २, १.  
 परिवेषयत् भाग २, ४ : १६; ६ :  
 १३; ३२ : ८.  
 परि-विष्ट, षा- -ष्टः अप ६३, ३, ४-६;  
 ४, ४; -ष्टम् वाश्रौ १, ३, ७, ७<sup>i</sup>;  
 -ष्टयोः अप ६३, ३, ६; -ष्टा  
 वाधूश्रौ ४, २६<sup>h</sup> : ३; -ऋश्रौ<sup>l</sup>

बौश्रौ ४, ६ : ४५; भाश्रौ ७,  
 १४, १; -ष्टे अप ६३, ४, २;  
 ३; -ष्टेषु अप ६३, ३, ८.  
 परि-विष्य वाधूश्रौ ३, १८ : ८;  
 आग्निगृ १, १, १ : ६ × ×; बौगृ;  
 जैगृ २, ६ : ८<sup>i</sup>.  
 परि-विष्यत्- -ष्यतोः कप्र १, ५, ८<sup>k</sup>.  
 परि-विष्यमाण- -णे गोगृ ४, ५,  
 २९; द्रागृ ४, १, १४.  
 परि-वेष<sup>l</sup>- -षः भाश्रौ ८, १७, ६;  
 अप ६१, १, २७ × ×; -ऋषम्  
 आपश्रौ १, ६, ७; भाश्रौ १, ६, १०;  
 हिश्रौ १, ३, २; -षाः अप ६८,  
 ५, १५; -षाणाम् अप ६१, १, १;  
 ६३, १, ४; -षान् अप ६३, १, १;  
 ३; ४, १०; -षे अप ६३, १, १०;  
 २, ४; आपध १, ११, ३१; हिघ  
 १, ३, ८२; -षेषु अप ५२, ७, ३;  
 ६१, १, ४; -षैः अप ६५, २, ३.  
 परिवेष-ग(त>)ता- -ता अप  
 ६३, २, ९.  
 परिवेष-रजो-धूम- -माः अप  
 ६४, ९, १.  
 परि-वेषक- पाग २, २, ९<sup>m</sup>.  
 परि-वेषण- -णाय जैश्रौ १ : ३१.  
 परि-वेषट्- -ष्टा बौगृ २, ११, ६६;  
 -ऋषारः शांश्रौ १६, ९, १६;  
 भाश्रौ ७, १४, १; बौश्रौ ४, ६ :  
 ४५; अथ ९, ६(६); -ष्टारम्.  
 वाधूश्रौ ४, २६<sup>h</sup> : ४.  
 परि-वेष्य वैगृ २, १ : ५.  
 परि-ची-, च्वीत- प्रसृ. परि√च्ये द्र.  
 परि√चु (आच्छादने), परिवारयन्ति  
 गोगृ ४, २, ३; परिवारय शौच

a) वैष १ निर्दिष्टानां समावेशः द्र. । b) प्राप्ते. वैष १, १५४२ k द्र. । c) = परि-वित्त- । उप. प्र.  
 भेदः । d) = परि-वित्त- । e) वैष १ द्र. । f) = परि-विविदान- । g) प्राप्ते. वैष १, १९४४ n द्र. ।  
 h) 'वेष्टि इति पाठः? यनि. शोचः । i) प्राप्ते. वैष १, १९४५० द्र. । j) 'न्यम् इति पाठः? यनि. शोचः । k) 'इत्यतोः  
 इति BI. ? , 'न्यतोः इति जीसं. ? । l) आप. > नाप. । m) तु. [पक्षे] पाका. पासि. च । परिवेषक- इति प्राप्ते. ।

३, ६५<sup>†</sup>.परि-वार- -रः<sup>a</sup> आपश्रौ २२, १२, ७<sup>b</sup>; -रम्<sup>c</sup> वाध १६, २६<sup>d</sup>; -रात् वाध १६, २४<sup>e</sup>; शंघ २४३.

परि-वार्य काश्रौ ८, ३, २४; ६, ९; काय परि-वार्यमाण- -णयोः द्राश्रौ १४, ४, १६; लाश्रौ ५, ८, १५.

परि-वृत्त- -तः वौश्रौ १८, ४५: २५; वैश्रौ १८, १५: १७<sup>†</sup>; कौसू; पा ४, २, १०; -तम् काश्रौ ५, ८, २१; २६, १, १३; गोग् ३, ४, ७; ऋप्रा ९, १८<sup>†</sup>; -तस्य गोग् ४, २, ८; १६; -ता अप ५८<sup>†</sup>, ३, ३; -ताः अप ५८<sup>†</sup>, ४, १०; -ताम् जैग् २, ९: ३८; -ते काश्रौ ७, १, २०××; पाग् ३, ३, १०; द्राग् ३, १, १.प(रि >) रि-वृत्, ता- -तः आपश्रौ १६, १८, ६; हिश्रौ ११, ६, ३०; अश्रौ १७, १<sup>†</sup>; -तम् आपश्रौ १७, २१, ७; वौश्रौ १९, ७: ३३; हिश्रौ १२, ६, २६; ऋप्रा ९, ६; -तात् अश्रौ ३, ४, १.परि-वृत्त<sup>†</sup> -क्षाणि कौसू ८०, २.परि-वृत्, परिवृणक्ति वाधूश्रौ ३, ३३: ४; ऋपरि...वृणक्ति वौश्रौ ६, १६: ११; वौग् ४, ४, १०; परि (वृणक्ति) शुप्रा ४, २७<sup>†</sup>; ऋपरि...वृणक्तु आपश्रौ १, २, ८; वौश्रौ १, १: १४; भाश्रौ; या १०, ७; ऋपरि (वृञन्तु) आपश्रौ २२, २८, २३; वौश्रौ १८, १७:२५; हिश्रौ २३, ४, ६३; परि-वृङ्गिगध आपश्रौ २०, १६, १२<sup>†</sup>; परिवृङ्गिगध हिश्रौ १४, ३, ३६<sup>†</sup>; शुप्रा ६, ३०.परिवर्ज काग् ३१, २<sup>†</sup>. परिवर्जयेत् आपग् ३, १०; १३; अप.

परि-वर्जित- -तः शंघ ४६१.

परि-वर्ज्य- -र्ज्यम् वाध १४, १४.

परि-वृक्त, क्ता- -क्तः अप ५३, २, ५; -क्तम् वौश्रौ १५, ३०: २५; अप ७२, ३, ८; -क्त<sup>†</sup> शाश्रौ १२, २१, २; काश्रौ २०, १, १२; ५, १५; अप्रा ३, २, १८<sup>†</sup>; -क्ताः<sup>†</sup> शाश्रौ १६, १३, १०<sup>†</sup>; -क्ताम्<sup>†</sup> शाश्रौ १६, ४, ३.परि-वृक्ति, क्ती<sup>†</sup> -क्तिः हिश्रौ १४, ३, २२; २३; -क्ती आपश्रौ २०, १५, ७; १०××; वौश्रौ; -क्तीम् आपश्रौ २०, १०, २<sup>†</sup>; लाश्रौ ९, १०, ५; -क्त्यै वौश्रौ १२, ५: २२; २६, १: १३.प(रि >) रि-वृञान- -नः आपध २, ५, १९<sup>†</sup>.

परि-वृढ- परि-वृह् द्र.

परि-वृत्, परिवर्तते आपश्रौ ५, १४, ६; २१, १४, ४××; भाश्रौ; परिवर्तते या १४, ४; परिवर्तन्ते हिश्रौ १६, २, १२; ७; २२; परिवर्तते वैश्रौ २०, २९: ७. परिवर्तयति वैश्रौ १, १२: १९<sup>†</sup>; परिवर्तयन्ति अप ७२, ४, ४;माशि १६, ४; ऋपरिवर्तये<sup>†</sup> आपश्रौ ८, ४, २; वौश्रौ; परिवर्तये<sup>†</sup> माश्रौ १, ७, २, २३; ऋपरिवर्तयेत्<sup>†</sup> आपश्रौ ८, ८, २१; वौश्रौ ५, ९: २६; १७: १४; हिश्रौ ५, २, ७०; परिवर्तयेत् भाश्रौ ५, ८, ८; माश्रौ १, ५, ४, १६; ५, २, १५, २७; द्राश्रौ.परि-वर्त<sup>†</sup> > -वर्त<sup>†</sup> -केन वाध २, ३९.

परि-वर्तन- -नम् वाध १६, ११.

परि-वर्तमान- -नः शाश्रौ १७, १५, ४; -नम् या १४, ५; -ने वैश्रौ १७, १३: ९; हिश्रौ १३, १, ५३; या ४, २, ७<sup>†</sup>.

परि-वर्तयत् -यन् द्राश्रौ १५, ४, १२; लाश्रौ ५, १२, १८.

परि-वर्ति(त &gt;) ता- -ता माशि १६, १.

परिवर्तित-वासस्<sup>†</sup> -ससः विध १९, ८; १८; -साः विध ६४, २५.

परि-वर्तिन्- -र्तिनः वृदे ४, ३४.

परिवर्तिनी<sup>†</sup> -नी<sup>†</sup> विध ९८, २; -नीम् निसू १, १०: १३; -न्या लाश्रौ ६, २, १६; -न्याः लाश्रौ ६, ६, १०.

परिवर्तिनी-पर्याय- -यौ लाश्रौ ६, ७, १; १४.

परिवर्तिनी-विधान- -नम् लाश्रौ ६, १, १८.

परि-वर्त्य काश्रौ ६, ९, १७; द्राश्रौ;

a) = उत्तरीय-वस्त्र-। b) सप्र. वैयाघ्रः परिवारः &lt;&gt; वैयाघ्रपरिच्छदः इति पाभे. । c) = परि-जन-।

d) सप्र. शंघ २४३ तत्परिवारम् इति पाभे. । e) पाभे. वैप १, १९४६ b द्र. । f) परि-वृ<sup>†</sup> इति पाठः? यनि.

शोघः (तु. शौ १७, १, २८) । पाभे. वैप १, ७१३ d द्र. । g) विप. । वस. । h) पाभे. वैप १, १९३३ b द्र. ।

i) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र. । j) वैप १ द्र. । k) पाभे. पृ १५२१ d द्र. । l) पाभे. वैप २, ३४६.

परिवर्तये तैत्रा १, ५, १ टि. द्र. । m) सपा. माश्रौ १, ७, ५, ५१ पर्याय इति पाभे. । n) = परिवर्ततः

o) स्वार्थे प्र. । p) = विष्टुति- । q) विप. (वसुमती-)

परिवर्त्यऽपरिवर्त्य काश्रौ २५,  
८,१.  
परिवृत्ति,त्ती- -त्तिः मीसू १०,५,  
८६; -त्तीम् काश्रौ १५,३,२१<sup>a</sup>;  
-त्तौ आपध २,२, ३; हिध २,  
१, २५; मीसू १०, ५, ८५;  
-त्त्यै काश्रौ १५,३,१४<sup>a</sup>.  
परिवृत्त्य कौट २,१,२९.  
परि√वृष्ट् (<√वृष्ट्), परिवृश्चति  
वैश्रौ १०,२ : ५.  
परि√वृह् > परि-वृह L,ह<sup>b</sup> पा ७,  
२,२१; पाग ५,१,१२३; -ढः या  
१,८; ६,१७; -ढम् या १,७; ८.  
पारिवृह्य- पा ५,१,१२३.  
परिवृढ-निपातन- -नम् पावा  
७,२,२१.  
परिवृत्त- (>न्त-क- पा.) पाग ४,  
२,८०.  
परि-वेच- , वेदन- परि√विद्  
(लाभे) द्र.  
परि-वेप- परि√विप् द्र.  
?परिवेपः<sup>c</sup> अप ६८,२,४.  
परि-वेपक- , पण- परि√विप् द्र.  
परि√वेष्ट्, परिवेष्टयति हिश्रौ १३,  
१, ९; जैश्रौ ६ : १४; आग्निष्ट  
१,७,१:८; २,४,९ : १५; वौपि  
३,३,२; या ९,१५; परिवेष्टयतः  
हिश्रौ ७, ५, १९; परिवेष्टयन्ति  
आपश्रौ ११, ७, ५; परिवेष्टयेत्  
भागृ २,२७ : ६.  
परि-वेष्टयित्वा आग्निष्ट २,४,६ : ८.  
परि-वेष्टित- -तः अप ६३, २, ६;  
वाध २१, १८; काश्रु ७, २३;  
-तम् अप २१, ५, ४.

परिवेष्टित-शिरस्<sup>d</sup>- -राः वाध  
१२, १३.  
परि-वेष्ट्य वाश्रौ ४,१५, २२; ७,  
१५,२; काश्रौ.  
परि-वेष्ट- परि√विप् द्र.  
परि-व्याघ<sup>e</sup>- -घः आगृ २,७,६.  
परि-व्या(वि-आ)√वृञ्, परि-व्या  
वृञ्चन्तु शांय ३,९,११<sup>f</sup>.  
परि-व्या(वि-आ)√ह > परि-व्या-  
हरत्- -रन् वैश्रौ १८,३ : ११.  
परि√व्ये, परिव्ययति शांश्रौ १७,  
१०,१०; काश्रौ; ऋपरिव्ययामसि  
वैश्रौ १९, ६ : ५४; हिश्रौ १२,  
४,१; ऋपरि-व्ययन्ताम् वौश्रौ  
४, ४ : ३८; भाश्रौ ७, ९, २;  
परि(व्ययन्ताम्) वौश्रौ ४, ४ :  
३८<sup>g</sup>; ऋपरि-व्ययस्व आगृ  
४,३, १९, आग्निष्ट ३, ५, ७ :  
२४; ७, ३ : १५; वौपि १, ७ :  
१; २, १, ७; परिव्ययेत् वौश्रौ ७,  
११ : ७; २४, ३५ : ४.  
परिव्ययत ऋग्रा १४, ५८<sup>h</sup>.  
ऋपरि-वी<sup>i</sup>- -वीः काश्रौ ६, ३,  
१३; आपश्रौ ७, ११, ५; वौश्रौ.  
परि-वीत,ता- -तः आश्रौ ३, १, ९;  
आगृ १, २०, ९; पागृ; या २, ८;  
-ताम् वौगृ २, ५, १४; वागृ ५,  
७; -तायाम् मागृ १, २२,  
१०.  
परि-वीय काश्रौ ८, ८, १५; आपश्रौ;  
पा ६, १, ४४.  
परि-वीयमाण- -णाय शांश्रौ ५,  
१५, ४; काश्रौ ६, ३, १३; आपश्रौ.  
परि-व्ययण- -णात् काश्रौ ६, ३, ५;

आपश्रौ ७, १०, ५; वौश्रौ; -णे  
वौश्रौ २०, २६ : ५०.  
परिव्ययणी<sup>k</sup>- -णीम् आग्निष्ट  
३, ८, १ : ५<sup>h</sup>.  
परिव्ययण-काल- -ले काश्रौ १४,  
१, २०.  
परिव्ययण-देश- -शम् काश्रौ ६,  
३, ५.  
परिव्ययणा(ण-आ)दि- -दि  
आश्रौ ५, ३, ५; काश्रौ ९, ८, १;  
१०, ९, १३.  
परिव्ययणा(ण-अ)न्त<sup>d</sup>- -न्तम्  
वाश्रौ ३, २, ६, १६.  
परिव्ययणी(य >)या- -या  
शांश्रौ ६, ९, ४; -याम् आश्रौ ५,  
३, ६; शांश्रौ ६, ९, ६; ७.  
परिव्ययणीया(य-आ)दि-  
-दि शांश्रौ ६, ११, १७.  
परिव्ययणो(ण-उ) पाकरण-  
नियोजन-प्रोक्षण- -णानि पागृ  
३, ११, २.  
परि-व्ययत्- -यन् वौश्रौ ४, ४;  
३७; ७, ९ : २; वैश्रौ १०, ९ : ९;  
वौगृ २, ५, १३.  
परि-व्याण- > णा(ण-अ)न्त<sup>d</sup>-  
-न्तम् मीसू ५, २, ७.  
परि√वृञ्, परिवृजेत् आग्निष्ट २, ७,  
१० : १७; वौध २, ६, १८.  
परि-वृजत्- -जन् आश्रौ ६, १०,  
१७; आगृ २, ८, ११ x x.  
परि-वृजन- -नम् शंघ १६१.  
परि-वृज्य आश्रौ ४, ६, १; ५, ३, १८;  
७, १; गोगृ २, २, ८.  
परि-वृज्<sup>l</sup>- पाठ २, ५९; पावा ८,

a) = पतिपुनरहिता-स्त्री- इति विद्याधरः । b) या १, ७; ८<sup>२</sup> पाठः । c) पाठः? (परि√विश्र  
>ल्पि) परि-विश्र इति शोधः । d) विप. । बस. । e) नाप. । अर्थः व्यु. च? < परि√व्यध् इति  
असा. MW. । f) वैप १ द्र. । g) = रज्जु- । h) सपा. वौपि १, १४:४ परिव्ययणीम् इति पाठे. । i) पृष-  
= परिव्ययण- । j) कर्तारि कृत् ।



२, ३६<sup>a</sup>; -त्राजः आपध २, २१, ७; हिध २, ५, ११६.  
 परिव्राट्-कौशिक- पा, पाग २, ४, १४.  
 परि-त्राज<sup>b</sup> - जेन आमिगृ २, ४, ९ : १३.  
 परि-त्राजक- पाग ५, १, १३०; -कः वौगृ २, ९, १७; वाध १०, १; वौध २, ६, १४; १८; या १, १४; -कस्य वौपि ३, ११, १; -काः या २, ८.  
 परिव्राजक<sup>c</sup> - पा ५, १, १३०<sup>d</sup>; -कः कौसु ९२, १०.  
 परिव्राजक-कौशिक- पा, पाग २, ४, १४.  
 परिव्राजक-चारण-वानप्रस्थ-ब्रह्म-चारिन्- -रिणाम् अप ७२, ४, १.  
 परिव्राजक-वानप्रस्थ- -स्थो शंघ २५८.  
 परि✓शस् (हिंसायाम्) > प(रि >) री-शास<sup>e</sup> - सौ काश्रौ २६, २, १०; ५, १२; ७, १७.  
 परि-शाल<sup>f</sup> - (> पारिशाल्य-पावा.) पावाग ४, ३, ५८.  
 परि✓शिप्, परिशिनष्टि काश्रौ ४, १४, ११; वौश्रौ ५, १० : १६××; वैश्रौ; परि...शिनष्टि वौश्रौ १, १५ : ५; ४, ६ : २; १६××; वौगृ; परि...शिनष्टः वौश्रौ ५, ७ : २; परिशिन्यात् वौश्रौ २५, ३२ : १३; २४; ३०.  
 परिशिन्यते आश्रौ ९, ३, १३; शाश्रौ १५, २७, १; १६, २२, १८; वौध १, २, ५७<sup>g</sup>; परि (शिन्यते) अश्र १५, १२<sup>h</sup>; परिशिन्यन्ते

वाधुश्रौ ३, ८६ : ३; ४, ४६ : ११; ९१ : ३; आपणु १८, ३; ५; ७; हिणु ६, ८; ९; १२.  
 परि-शिष्ट, टा- -ष्टः शाश्रौ १८, २०, ५; -ष्टम् आश्रौ ३, ११, ८; भाश्रौ २, १६, १०; ७, १, ३; अय १९<sup>i</sup>, ५, ९; -ष्टाः शाश्रौ १८, १०, २; ६; वागृ १, १; -ष्टान् आश्रौ ७, २, १०; ५, ८; १०, २, ३०; हिश्रौ ७, २, ४३; -ष्टानि चव्यू २ : २९; ३२; -ष्टायाम् शाश्रौ १७, १७, ५; -ष्टसु शाश्रौ १७, १४, ४; १५, ९; -ष्टे शाश्रौ १०, ८, १४; -ष्टेन वौश्रौ ३, १६ : ३; -ष्टौ शाश्रौ ९, ५, ८.  
 परिशिष्ट-संख्या- -ख्यानाम् वागृ १, १.  
 परि-शिन्य शाश्रौ ५, ९, २५××; हिश्रौ ५, ४, ७२.  
 परि-शेष- (> पारिशेष्य- पा.) पाग ५, १, १२४<sup>j</sup>; -पम् शाश्रौ १८, २४, २४; -पात् शाश्रौ १२, ७, १.  
 परि✓शी, परिशेते वौश्रौ ९, ४ : २५; १७ : १३××; वैश्रौ; णपरिशेस्ते आपश्रौ १, १४, ३; ८, १३, २०; वौश्रौ; परिशेरे<sup>k</sup> आपश्रौ १२, २५, ७ ण; वौश्रौ ७, १५ : ६××; वैश्रौ; परिशयेत् वौश्रौ ६, २४ : १३; परिशयी- रन् वौश्रौ २०, ६ : १९; २१ : २५××.  
 परिशाययन्ति वौश्रौ ९, २ : ३२; १२, ८ : २६; वाश्रौ ३, १, १, २१; २, ३३; परि...शाययन्ति

वौश्रौ १८, २२ : ३; परिशाय- यीत् वौश्रौ २५, १६ : १०; परिशाययेत् आपश्रौ २१, १०, ३; वौश्रौ २०, ४ : ३६; २३, २ : १९; हिश्रौ १६, ४, १५.  
 परि-शायन- -नम् वौध १, ६, ३८; -ने वौश्रौ २०, ६ : १९; २१, १३ : ३३.  
 परि-शील<sup>l</sup> - (> पारिशैल्य-पावा.) पावाग ४, ३, ५८.  
 परि✓शुघ् > परि-शु(द्ध) - द्वा- द्वा शंघ २३४.  
 परि-शुद्धि- -द्ध्यै वेंग ३, २ : २.  
 परि✓शुप्, परिशोपयेत् आमिगृ २, ७, १० : ८.  
 परि✓श्रि, परिश्रयति काश्रौ १७, १, ७; २१, ३, ३२; २६, ३, ९; आपश्रौ; परिश्रयेते हिश्रौ १६, ६, २४; परिश्रयतः<sup>m</sup> हिश्रौ ७, ५, २९; ७, २१; परिश्रयन्ति आपश्रौ १५, ५, २; २१, १७, १९; वौश्रौ ५, १३ : १५××; भाश्रौ; णपरिश्रयस्व वौश्रौ ९, ७ : १७; १९ : २९; वौगृ ३, ४, १९; परिश्रयेत् माश्रौ १, १, २, १३.  
 परि-श्रयण<sup>n</sup> - -णम् आपश्रौ ८, १४, २५; ११, १०, १४<sup>o</sup>; वौश्रौ; -णानि आपश्रौ ८, १५, १; १६, १६; वौश्रौ ८, २० : २७; १५, २२ : ११.  
 परिश्रयणी- -णीम् वौपि १, १४ : ४<sup>p</sup>.  
 परिश्रयणा (ए-आ)वृत्- -वृता माश्रौ ४, २, ४.

a) तु. आर्पव्याकरणम् । b) उप. भावे प्र. । c) विप. । तस्येदमीयः अणु प्र. । d) भाप. । e) = पात्र-विशेष- । करणे घञ् प्र. । f) अस. । g) तु. पागम. । h) प्रपुत्र त-लोपे रूपम् । i) सप्र. श्रयतः <> श्रित्य इति पाठे. । j) भावाद्यर्थे कृत् । k) पाठे. पृ १५२६ h द्र. ।

परि-श्रयत्- -यन्तः माश्रौ २, १, १,  
९; हिश्रौ ७, १, २५.

परि-श्रित्<sup>४</sup>- -श्रितः काश्रौ १६, ८,  
१७; २३; १८, ६, १३; वैताश्रौ  
२९, ११; शुश्र २, १०९; -श्रित्सु  
काश्रौ १८, १, १; -श्रिद्धिः  
काश्रौ १७, १, ७; २१, ३, ३२.

परिश्रित्-स्पृश्- -स्पृक् काश्रौ  
१८, ५, ६.

परि-श्रित- -तः वौश्रौ १५, १७ :  
२६; -तम् आपश्रौ ८, १६, १०;  
१०, ५, १; ११, ९, ४; वौश्रौः  
-तस्य आश्रु २, ५, २; पाश्रु २,  
६, ९; -ताः आपश्रौ १७, २१,  
६; वैश्रौ १९, ६ : १४१; -तात्  
माश्रौ १, ७, ६, ४८; -ताम् वैश्रौ  
१२, ४ : ९; -ते शाश्रौ ३, १६,  
१६; आपश्रौ ३, ९, ३; ८, १५,  
१८××; वौश्रौः -तेन आपश्रौ  
१०, २४, २; हिश्रौ ७, २, ३६.

परि-श्रित्य शाश्रौ १८, २४, १९;  
काश्रौ २५, २, २; आपश्रौ ८,  
१३, १५××; ११, ८, ४<sup>७</sup>; वौश्रौ.

परि-श्रीयमाण- -णचोः शाश्रौ ५,  
१३, ७.

परि√श्रु> परि-श्रुत- -तम् माशि  
१५, १.

परिपा, पि<sup>०</sup>क<sup>१०</sup>- (> पारिपा, पि।  
क- पा.) पाग ४, १, ११२<sup>१</sup>.

?परिपयोयः वाधुश्रौ ४, ७५ : २.

परि√प (<स) द्, ङपरिपीदन्ति  
कौस् ५, ४; अषं २ : ५६.

परि-पद्<sup>४</sup>- पाग ४, २, ६०; ११०<sup>४</sup>;  
३, ११८<sup>०३</sup>; ५, १, ९७<sup>६</sup>; पावाग  
३, ३, १०८; -पत् वौध १, १, ७;  
गौध २८, ५०; -पत्सु आपध १,  
११, ३८; हिध १, ३, ८९; -पदः  
आपश्रौ ५, १९, ३; माश्रौ ५,  
१२, १२; वाश्रौः -पदम् हिद्य  
१, १५, ८; द्राश्रु ३, १, २५; कौस्  
३८, १७; ३०; -पदि कौस् ३८,  
२२; वौध २, १, ३५; -पद्भ्यः  
वौश्रु २, ८, ९१.

पारिपद- पा ४, २, ११०;  
३, १२३; ५, १, ९७.

पारिपदक- पा ४, ३, ११८.

पारिपदिक- पा ४, २, ६०.

पारिपद्य- पा ४, ४, ४४;  
१०१.

परिपत्-त्व- -त्वम् वाध ३, ५;  
वौध १, १, १०.

परिपद्-नामिन्- -मि शंघ ३००.

परिपद्-त्रल- पा ५, २, ११२.

ङपरि-पच्<sup>१</sup>- -ञ्च आपश्रौ ५, १२,  
२; ६, ३, ४××; माश्रौः -च्चः  
शाश्रौ ६, १२, ७; आपश्रौ ११,  
१४, १०; वौश्रौः -चम् या  
३, २७.

परि-पचण- परि√पृ द्र.

परि-पस्वजाना- परि√ष्वज् द्र.

परि√प (<स) ह् पा ८, ३, ७०.

परिपादक्<sup>४</sup>- (> पारिपादक- पा.)  
पाग ५, २, ६१.

परि√पि (<सि) > परि-पय- पा

८, ३, ७०.

परि-पि [, षी] त<sup>१</sup>- पा ८, ३, ७०;  
-ङ्तः आपमं २, २२, ५; ६<sup>३०</sup>;  
माश्रु २, २७ : १५; हिद्य १, १४,  
२<sup>१५</sup>.

परि√पि (<सि) च्, ज्च्, परिपिञ्चति  
काश्रौ ५, ९, १२; १८, २, १××;  
आपश्रौः परिपिञ्चन्ति काश्रौ  
१९, २, ८<sup>१</sup>; वौपि १, ८ : ११;  
शुश्रा ३, ६४<sup>१</sup>; परि(पिञ्चति)  
शुश्र २, ४२५<sup>१</sup>; ङपरिपिञ्चामि<sup>०</sup>  
शाश्रौ २, ६, १०; ११; आपश्रौः  
ङपरि...सिञ्चत, > ता काश्रौ  
१९, १, २२; आपश्रौ १९, ५,  
११; माश्रौः परि (पिञ्चत) ऋश्रा  
७, ३२; ११, ५; उनिस् ७ : १४;  
परिपिञ्चेत् आपश्रौ १५, १४, ३;  
१६, ३; वौश्रौ.

ङपरिपिच्यते आश्रौ ५, १२,  
१५; शाश्रौ.

परि-पिक्त- -क्ते माश्रौ ४, ४, २५;  
२६; द्राश्रौ.

परि-पिच्य काश्रौ २६, ७, १२;  
आपश्रौः परिपिच्यः परिपिच्य  
काश्रौ ५, ९, १३; वौश्रौ २२,  
९ : १२.

परि-पिच्यमान- -ने वौश्रौ ९, १४;  
१०; १६ : १५××; माश्रौ.

परि-पिञ्चत्- -ञ्चत् शाश्रौ १, १५,  
११; आपश्रौः -ञ्चन्तम् आश्रु  
१, २२, २१.

परि-पेक- -कः कप्र २, ४, १-५;

- a) = (स्तम्भनार्थ-) पापाण-खण्ड-। b) पामे. पृ १५२७ i द्र.। c) पाका. पाठः। d) व्यप.।  
व्यु. ?। e) तु. पागन.। f) पार्षिका- इति [पक्षे] पागन., पार्षिका- इति भाण्डा. पासि.। g) = समिति-।  
अधिकरणे कृत्। h) = ग्रान-विशेष-। i) पर्यद्- इति [पक्षे]. भाण्डा. प्रम्.। j) वैप १ द्र.।  
k) अर्थः व्यु. च ?। तु. पाका.। परि-सारक- इति भाण्डा. प्रम्.। l) पि<sup>०</sup> इति पा. पाठः।  
m) पामे. पृ १५२१ a द्र.। n) ष्दः इति पाठः ? चनि. श्लोचः (तु. माश्रु.)। o) पामे. वैप २, ३२<sup>१</sup>  
तैत्रा २, १, ११, १ टि. द्र.।

-कम् माश्रौ ३, ५, ५; वीगृ.  
 परि-षेचक- पाग २, २, ९.  
 परि-षेचन- नन् काश्रौ २६, ७,  
 ३५; आपश्रौ १५, १६, ८;  
 वीश्रौ; -नात् वीपि २, ११, २;  
 भाग्य २, २ : २; हिगृ १, ८, ३;  
 -नाय वाश्रौ १, ७, ४, २४.  
 परिषेचना(न-आ)दि<sup>३</sup> -दि  
 भाश्रौ ६, १४, १७.  
 परिषेचना(न-अ)न्त<sup>३</sup> -न्तम्  
 आपगृ ५, १३; ६, ४×४; भाग्य.  
 परि/पि, पीच्<sup>३</sup>, परिषीच्यति काश्रौ  
 ८, ४, १४; भाश्रौ १०, ५,  
 १३; हिश्रौ ७, १, ४४; ५, ३१;  
 ७, २१; परिषीच्येत् वीश्रौ २१,  
 १४ : ३०; ३१.  
 परि-पीवण- -णे वीश्रौ २१, १४ :  
 ३०.  
 परिषीवण-ग्रन्थ्यभिमर्शन-  
 -नानि काश्रौ ८, ६, ९.  
 परि/पू (<स्)°<sup>०</sup>, परिषीति आपश्रौ  
 १, ३, ६; भाश्रौ १, ३, ९; वैश्रौ  
 ३, ४ : ३; हिश्रौ १, २, २६.  
 परिषुवति माश्रौ १, १, १, २९.  
 परि-पवण- -णात् आपश्रौ १, ४, ६;  
 भाश्रौ १, ३, २०; हिश्रौ १, २,  
 ३९; -णे वीश्रौ २०, २ : २३.  
 परिपवणो(ण-उ)स्सर्जन-वर्जम्  
 वैश्रौ ३, ४ : ८.  
 परि-पूत<sup>०</sup> - णितम् आपश्रौ १, ३, ६;  
 वीश्रौ; -तस्य वैश्रौ ३, ४ : ४;  
 हिश्रौ १, २, २८; -तान् आपश्रौ

१, ३, १०.  
 परि-पूय आपश्रौ १, ३, ८; वाश्रौ १,  
 २, १, १५.  
 परि/षे (<से)च् पा ८, ३, ७०.  
 परि/ष्क, स्कन्द<sup>३</sup> > परि-ष्कन्द-  
 -न्दन् वीश्रौ १८, २४ : १८.  
 परि-स्कन्द- पा ८, ३, ७५.  
 परि-प् (<स्) / कृ<sup>३</sup>, परिष्कृष्वन्ति  
 ऋप्रा ४, ८७<sup>३</sup>.  
 णितम् ऋप्रा ४,  
 ८५; उस् ६, ३.  
 णितम् ऋप्रा ४,  
 २; -तम् ऋत ४, ५, ८; -ता  
 अप्रा ३, ४, १; -ताः शुप्रा ३,  
 ५३.  
 परि-ष्टि<sup>०</sup> -ष्टिः आश्रौ २, १०, ४<sup>३</sup>.  
 परि/ष्टु (<स्तु)<sup>३</sup>, परिष्टुवन्ति वीश्रौ  
 १८, १५ : ५; ७×४; वाश्रौ २,  
 २, ३, १४.  
 परि-ष्टवन->°नीय<sup>३</sup> -याः शांश्रौ  
 १७, ७, ६<sup>३</sup>.  
 णितम् हिगृ १, १६, १७;  
 -ते शांश्रौ ९, २५, १.  
 णितम् वीश्रौ ६, २४ :  
 २२; ९, २ : ३.  
 परि/ष्टु (<स्तु)म्, परिष्टोभत ऋप्रा  
 ५, १२<sup>३</sup>.  
 परि-ष्ट (<स्य)ल- पा ८, ३, ९६.  
 परि/ष्टा (<स्या), परिष्टात्, परिष्टुः,  
 परिष्टाः ऋप्रा ५, १६<sup>३</sup>.  
 परि-तस्थिवस्->°तस्थुषी- षीः  
 कौगृ ३, १५, ५<sup>३</sup>.

परि-ष्टा<sup>३</sup> -ष्टाः शुप्रा ४, २७<sup>३</sup>.  
 परि/ष्य (<स्य)न्द<sup>३</sup> > परि-  
 प्यन्द<sup>३</sup> -न्दे काश्रौ १८, ३, ९.  
 परि-ष्यन्दम् वीश्रौ १४, २६ : २२.  
 परि/ष्वज्, ज्ज<sup>३</sup>, परिष्वजते हिगृ  
 १, २४, ५; परिष्वजति वीगृ १,  
 ७, ४२; परिष्वजन्ते ऋप्रा ५,  
 १३<sup>३</sup>; णितम् परिष्वजाते<sup>०</sup> कृया ६,  
 २८; ११, ३४; परिष्वजस्व  
 आपमं १, ११, ७<sup>३</sup>; परिष्व-  
 जध्वम् ऋप्रा ५, १३<sup>३</sup>; परिष्वजेत्  
 वाध २०, १४.  
 णितम् परिष्वजे आश्रौ ७, २, १७;  
 ऋप्रा ५, १५; णितम् परिष्वजाते या  
 १४, ३०; ऋप्रा ५, १५;  
 परिष्वङ्क्ष्यते या ६, २८; ११,  
 ३४; पर्यष्वजत् ऋप्रा ५, ३०<sup>३</sup>.  
 णितम् परि-ष्वजा(न >)ना- -ना या  
 ९, १८<sup>३</sup>; -नाः आपश्रौ १८,  
 १५, ३; वीश्रौ १८, १८ : १२;  
 हिश्रौ १३, ६, ३९.  
 परि-ष्वङ्ग<sup>३</sup> -> ऋ-परम<sup>३</sup> -मम्  
 वीश्रौ ४, १ : २८.  
 परि-ष्वजत् - -जन्तः हिश्रौ १६,  
 ५, ३<sup>३</sup>.  
 परि-ष्वजन- -नाय या २, २७.  
 परि-ष्वजमा(न)ना- -ना या ९,  
 १८.  
 णितम् परि-ष्वजे<sup>०</sup> आपमं १, १, ६; वीगृ  
 १, ६, २६; ४, १, ११.  
 परि-ष्वज्य आपश्रौ २१, १२, ७<sup>३</sup>;  
 आपध १, २५, २; हिगृ

a) विप. । वस. । b) पा ८, ३, ७०; ७१; ११६ परामृष्टः द्र. । c) वैप १ द्र. । d) पा ८, ३, ७४  
 परामृष्टः द्र. । e) पा ६, १, १३७; १३८ परामृष्टः द्र. । f) पा ८, ३, ७०; ७१ परामृष्टः द्र. । g) तस्येदमीयश्  
 छः प्रः उस्. (पा ४, २, २८) । h) णी<sup>०</sup> इति पाठः ? यनि. शोधः । i) सपा. परितस्थुषीः <> परिसंस्तुषीः  
 इति पामे. । j) वैप १, १९५० f द्र. । k) पा ८, ३, ७२ परामृष्टः द्र. । l) वैप-२, ३३स्व. द्र. । m) पा ८, ३,  
 ६५, ७० परामृष्टः द्र. । n) पामे. वैप-१, १९५० h द्र. । o) पामे. वैप-१, १९५० i द्र. । p) अर्थः ? = एक-  
 हस्त- इति भाष्यम् । q) परस्परं पामे. ।

परिष्वति वाश्रौ ३, २, ६, २०.

परि-सं√यु (मिश्रणे) > परिसं-युत-  
-तः अप ७०, ८, ५.

परि-संवत्सर<sup>१</sup> - रात् आपृ १३,  
१९; मात् १, ९, २<sup>b</sup>; वात् ११,  
२<sup>b</sup>; आपध २, ८, ७; १५, २०;  
हिध २, १, १०९; ३, ५४; -रात्  
गोत् ४, १०; २५<sup>b</sup>.

परि-सं√वह् > परिसम्-उह्य शाश्रौ  
२, ६, ९; ४, ३, ७; काश्रौ; हिध १,  
१, १३५<sup>c</sup>.

परिसम्-ऊढ- -डस्य वात् २, ४;  
-ढेषु वौत् ३, १२, ५.

परि-सं√स्या > परिसं-स्यि (त > )  
ता- -त्ता निसू ३, २ : २३.

परि-सं√ख्या > परिसं-ख्या<sup>d</sup>-  
-ख्या शाश्रौ ९, १, ६; वृदे २, ७१;  
मात् १, २, ४२; १०, ७, ४; ७.  
परिसंख्या(ख्या-अर्थ)- -र्थम्  
मात् ७, ३, २२; १०, ५, ३९.  
परिसंख्या-होम- -मान् अप  
३७, १०, १.

परिसं-ख्यात- -तः चव्यू २ : १०;  
-तम् चव्यू १ : १३; -ताः मैअ  
२१.

परिसं-ख्यातुम् शाश्रौ १, १७, ८.

परिसं-ख्यात- -नम् कप्र १, ४, १२;  
-नात् मात् ३, ७, ३३.

परिसं-ख्याय कप्र २, ९, १०; वाध  
३, ४७.

परिसं-ख्येय- -यम् अप ७१, १८, २.

परि-सं√गृह् > परिसं-गृह्य अप २२,  
१, ३.

परि-सं√चष्ट्, परिसं-चष्टे गोत् ३,  
५, २.

परि√सद् > परि-सन्न- -ज्ञात् आश्रौ  
२, ६, ६<sup>e</sup>.

परि-सम्√आप्, परिसमापयेत्  
अशां १२, ५.

परिसम्-ज्ञापन- -नात् आपध २,  
१७, २४.

परिसम्-ज्ञाप्ति- > ष्यञ्(ति-अ)र्थ-  
-र्थः मात् ३, ७.

परिसम्-ज्ञाप्य आपश्रौ १४, २१, १२

परि-सम्√इ, परि- -समीयात् वाश्रौ  
३, २, १, १७; ६, ५.

परि-सम्√ऊह् (प्रापणे), परिसमूहति  
भाश्रौ ६, ८, ११; १२; वाश्रौ १, ५,  
२, १४; पात् २, ४, २; वौत् २,  
५, ५८; ६४; परिसमूहन्ति वौश्रौ  
१, १ : ६; भाश्रौ १, ६, १४;  
परिसमूहेत् वात् ५, ३१; गोत् ४,  
५, ५; जैत् १, १ : १९; आपध  
१, ४, १८.

परिसमूहयति कौसू ५७, २३.

परिसम्-ऊहन- -नम् भाश्रौ ६, १४,  
९; गोत् १, ८, १६; कप्र १, ९,  
५; २, ५, १८; ३, ८, २; -ने  
आश्रौ २, ४, २१; -नेन आपश्रौ  
६, ३, १; हिश्रौ ३, ७, ११.

परिसमूहन-पर्युक्षण- -णे पात्  
२, ४, ६.

परिसमूहना(न-आ)दि- -द्दीनि  
द्रात् १, ५, १६.

परिसम्-ऊह्य आश्रौ २, ५, १३;  
वाश्रौ १, २, २, ७; कौत्; आपध  
१, ४, १६<sup>e</sup>.

परि-सं√मृज्, परिसं-मार्ष्टि आश्रित् २,  
५, ९ : ३.

परि-सर्पक- -र्षम् परि√सृप् द.

परि-सहस्र<sup>१</sup> - -त्तम् शाश्रौ १७, ७, २.

परि-सामन्<sup>१</sup> - -भमिः द्राश्रौ २, ४, ७;  
-मानि द्राश्रौ २, १, १; लाश्रौ  
१, ५, १.

परि-सिन्धु<sup>१</sup> - (> पारिसिन्धव- पा.)  
पाग ४, २, १३३.

परि-सीर<sup>१</sup> - (> पारिसीर्य- पावा.)  
पावाग ४, ३, ५८.

परि√स्तु, परि- -सर ऋप्रा ५, ५८<sup>f</sup>;  
-पर्यसरत् आपमं २, १३, १२;  
आश्रित् २, १, ३ : २०; भात् १,  
२३ : ११; हित् २, ३, ७.

परि (सत्तुः) कौसू १४, ७; १६-  
४; अप ३२, १, १३; अत्र ६, ६७.

परिसारयति भाश्रौ १, २, ३, १४.

परि-सर्वा- -पावा ३, ३, १०१.

परि-सस्रवस्- > सस्रुषी- -षीः  
शांत् ३, १३, ५<sup>h</sup>.

परि-सारक<sup>१</sup> - -कम् वा १४, २९.

परिसारक<sup>१</sup> -

परि-सारिन्- -पा ३, २, १४२.

परि-स्रत्- -स्रतः नात् २, ११, १२<sup>f</sup>.

परि-स्रव(र >)री- -रीम् भाश्रौ  
५, २, १०, २३.

परि√सृज्, परि(सर्जि) ऋअ २, ९,  
९२<sup>f</sup>.

परि√सृप्, परिसर्पति कौसू २, १८.

परि-सर्पक- -काः अप ५२, ५, ३.

परि-सर्पम् काश्रौ १७, ४, ७.

परि-स्कन्द- परि√कन्द् द.

परि√स्त्व, स्तु, परिस्त्वेत् कप्र २, ८, ४  
परिस्त्वुषुयात् गोत् १, ७, ९.

परिस्त्वुणाति आपश्रौ १, १४,

१४; १५, ३; ६, ३, ५; वौश्रौ;

परिस्त्वुणन्ति वौश्रौ २, १३=

a) प्राप्त. । b) सप्र. श्वात् <> श्वात् <> पात् १, ३, २ प्रतिसंवत्सरान् इति पाभे. । c) सप्र  
-मुद्य <> -मुद्य इति पाभे. । d) भांप., नाप. (विधि-विशेष). । e) शङ्क- इति BI. । f) तु. पागम. । = प्रदेश-  
विशेष- । g) अतः. । h) पाभे. पृ १५२९ i द. । j) परिषादक- टि. द. । j) पाभे. वैप १, १९५१ B द. ।

१७; ६, १ : १९××; परि...  
 स्तृणन्ति वाधूश्री ३, ९ : १३;  
 ऋपरिस्तृणामि आपश्री ११,  
 १३, ७; वीश्री ६, २८ : ४२; वैश्री  
 १४, ९ : ६; हिश्री ७, ६, ३१;  
 कौश्री २, २१; परिस्तृणीहि वैताश्री  
 २, ७; कौश्री २, २०ऋ; अश्री  
 ७, ९९ऋ; शौच; ऋपरिस्तृणीत  
 आपश्री १, १४, १२; भाश्री १,  
 ११, १; वैश्री; परिस्तृणीयात्  
 वीश्री २०, ४ : ३९; ५ : ४; ६;  
 २४, ३४ : ६××; परि... स्तृणीयुः  
 वाधूश्री ३, ९ : १०; ११; १३.  
 परि-स्तर<sup>५</sup>— ऋश्री १, ५, ५;  
 भाश्री १, ५, १; हिश्री १, २,  
 ३३; -रात् वीश्री १, ४, ३६.  
 परि-स्तरण— णम् काश्री ४, १३,  
 १५; आपश्री १, १४, १७; वाश्री;  
 -णानाम् आपश्री १, ५, ५;  
 भाश्री १, ५, १; -णानि वैश्री  
 २०, २२ : ४; काश्री ४७, १५;  
 -णाय वीश्री २, ११, ६३; -णे  
 वीश्री २०, ४ : ३८; ५ : ३; वाश्री  
 १, १, १, ७४; -णभ्यः आश्री  
 १, ६, ३ : ९; -णैः आश्री १, ८,  
 २; वाश्री १, २, ४, १२; ५, २, ४६.  
 परिस्तरणी— णीम् आपश्री  
 १, १४, १३.  
 परिस्तरण-कूर्च— ऋम् वैश्री १,  
 ६, ४? — चान् वैश्री २, १; ६.  
 परिस्तरणकूर्च-पवित्रा(त्र-आ)-  
 दि— ऋनाम् वैश्री ११, १० : ७.  
 परिस्तरण-दाहं— हे आश्री २,  
 ७, ९ : १९; वीश्री ४, २, २; भाश्री

३, १९ : ५.  
 परिस्तरण-न्याय— -यः गोश्री १,  
 ७, १४.  
 परिस्तरण-पात्रसंसादन-प्रोक्षणा-  
 (ण-आ) ज्यनिर्वपण— णानि  
 काश्री ८, ६, २३.  
 परिस्तरण-पात्रसंसादन-प्रोक्षणा-  
 (ण-आ)ज्यनिर्वपणा( ण-अ)धि-  
 श्रयण— णानि काश्री ६, २, ५;  
 ८, २, २०; ८, ३८.  
 परिस्तरण-पात्रसंसादन-प्रोक्षणा-  
 ( ण-आ)ज्यनिर्वपणा( ण-अ )-  
 धिश्रयण-स्तृकृसंमार्जनो( न-उ )-  
 द्वासना(न-अ)वेक्षण— णानि  
 काश्री १, १, २.  
 परिस्तरण-वर्हिस्— -र्हिपः वैश्री  
 १, ८ : ४; २१ : ५.  
 परिस्तरण-योग— -गात् अश्री  
 २४, ४, १.  
 परिस्तरणा( ण-आ)दि— -दिः  
 वैश्री १, १ : ८.  
 परिस्तरणादि-संभार—  
 -राणाम् वैश्री ६, १ : १७; -रे  
 वैश्री ६, १ : ७.  
 परिस्तरणा( ण-अ)न्त<sup>५</sup>— -न्तम्  
 वैश्री ११, १ : ५.  
 परिस्तरणीय— -यान् वीश्री ३,  
 १० : २; आश्री ३, ५, २ :  
 १४; ६, ३ : ४; वीश्री.  
 परि-स्तृणी— -र्णस्य वाश्री २, ४;  
 -र्णाः वीश्री १, ४ : २; -र्णे वाश्री  
 १, १, ५; ६.  
 परि-स्तृथी आश्री २, ६, ४; शाश्री  
 ४, ३, ७; काश्री.

परि-स्तृथी<sup>०</sup>— -र्थम् वैश्री १, ११ : ४.  
 परि-स्तृथीमाण— -णान् भाश्री ४,  
 ५, ४; -णेषु आपश्री ४, ३, ६;  
 वैश्री ३, ९ : ९; हिश्री ६, १, ३९.  
 परि-स्तृणत्— -णन् वीश्री ५, १२ :  
 ११; २१, ४ : २६; -णन्तम्  
 वैताश्री २, ७.  
 परि-स्तृ(त>)ता— -ता वैश्री ११,  
 २ : ५.

परि ✓ स्पन्द > परि-स्पन्द— -न्दः  
 वीश्री ३, २, १६; ३, २३.

ऋपरि ✓ स्तृ > परि-स्तृ<sup>०</sup>— -स्तृसा  
 आपश्री ५, १, ७; वीश्री २, ६ :  
 १५; भाश्री ५, १, ६.

ऋपरि-स्तृज्— > स्तृजिन्— -जि  
 आपश्री २२, ७, ७; वीश्री १८,  
 १ : ३; ४; हिश्री १७, ३, ६.

२परि-स्तृज्— -स्तृक् आपश्री १२, १,  
 ११; भाश्री २, ३, १, १५; हिश्री  
 ८, १, २२.

परि ✓ स्तृ, ऋपरिस्तृ जुम् ३, ११ :  
 २०; अश्री ४८, ११<sup>३</sup>; निघ ३,  
 २१; या ६, ६; ९, २.

परिसुस्तृवुः वाधूश्री ४, ७५ : ३९.

परि-(स्तृ>)स्ता<sup>५</sup>— > स्ता-व(त>)  
 ती<sup>५</sup>— -ती वाधूश्री ४, ७५ : ४०.

परि-स्तृत्<sup>५</sup>— -स्तृत् आपश्री १८, १,  
 १०; १९, १, ८; ६, ५; वैश्री  
 ११, १ : १०; हिश्री २२, १,  
 १४; -स्तृत्तः काश्री १४,  
 १, १४; आपश्री २, १५,  
 ४<sup>५</sup>; आश्री २, ८, १६<sup>५</sup>;  
 शाश्री; काश्री ११, २<sup>५</sup>; भाश्री  
 ३, ३ : ९<sup>५</sup>; माश्री १, २०,

a) पामे. वैप १, १९५१ j द्र. । b) वैप २, ३ खं. द्र. । c) स्तृकृ<sup>०</sup> इति पाठः? यनि. शोधः (तु. उत्तरं स्थलम्) । d) विप. । वस. । e) विप. । गस. उप. क्यप् प्र. उत्सं. (पा ३, १, १२३) । f) वैप १ द्र. । g) = पात्र-विशेष- । वस. उप. = रास्ना- (तु. भाष्यम्) । h) = रश्मू- । गस. उप. कर्तरि ङ. प्र. उत्सं. (पा ३, ३, १०१) । i) = अग्न्याहुतिविशेष- । j) पामे. वैप १, १९५१ s द्र. । k) शोधः वैप १, १९५१ d द्र. ।

२; -ङ्लुत्तम् शांश्रौ ४, ५, ३; १२, १७, १, आपश्रौ; -ल्लुता वैश्रौ ११, १: ११; भाशि २०.  
परिस्त्रुच्-हे (<शे) ष- -वम् काश्रौ १५, १०, १६.  
परिस्त्रुच्-क्षीर-लिस- -सानि काश्रौ १९, ५, ११.  
परिस्त्रुच्-धो (<हो)म- -नः काश्रौ १५, १०, १५.  
**परि/स्वन्**>परि-स्वान<sup>१</sup>- -न्त् निसू ८, ४: १७.  
**परिस्वाना**<sup>२</sup>- -ना निसू ६, २: ९; -नाम् निसू ६, २: ८.  
**परि/स्वृ**>परि-स्वार<sup>३</sup>- -रः लाश्रौ ७, ८, ८; नाशि १, ७, ५.  
?परिस्वृतेपु<sup>४</sup> ऋप्रा ५, २४.  
**परि/हन्**, परिघ्नन्ति शांश्रौ १६, १८, १४.  
परिघातयति वौश्रौ १८, २०: ६, परि<sup>५</sup>, लि<sup>६</sup>-घ<sup>७</sup>- पा ३, ३, ८४; ८, २, २३; पावाग ८, २, १८<sup>६</sup>; -घः अप ४८, १०१<sup>७</sup>; ६१, १, २६; -घम् भाग्य २, २८: ३<sup>८</sup>; अप ६१, १, १४; ७०<sup>२</sup>, २३, १३; -घे अप ६१, १, १५.  
**परि-हनु**<sup>९</sup>- (>पारिहनव्य- पावा.) पावाग ४, ३, ५८.  
**परि-हरण-** प्रमृ. परि/हृ द्र.  
**परि-हव-** परि/हे द्र.  
**परि/हस**, परिहस्यते अप ६८, ४, ४. परि-हास- -सम् वाश्रौ ३, २, ४, १०.  
**परि-हस्त-** पागवा ६, २, १८४.

**परि/हा**, (त्यागे) परिजहति वौश्रौ २५, ५: ७; परिजह्यात् वौश्रौ २०, १: ६३.  
परिहीयते अप ५२, ११, ४.  
**परि-हाणि-** पाठवृ ४, ५१.  
**परि-हाप्य** शांश्रौ १, १७, १०; ३, १६, १३××; काश्रौ; आपघ २, १५, २<sup>१</sup>.  
**परि-हाय** माश्रौ ६, १, ३, ३.  
**परि-हीण-** -णस्य वौश्रौ १४, २६: ११; -णे वौश्रौ २३, ८: १९.  
**परि-हार-** प्रमृ. परि/हृ द्र.  
**परि/हि**, ऋपरिहिणोमि<sup>१</sup> अप १, ३८, २; अशां ८, २; ऋपरिहिणोमि<sup>२</sup> ऋप्रा ५, ५०; अप्रा ३, १, ७; शौच ३, ८८.  
**परि/हि**, परिजुहुयात् वौश्रौ २०, १९: १६; २१, १५: ३९××.  
**परि-हृत-** परि/हृ द्र.  
**परि/हृ**, परिहरते काश्रौ १५, ५, १३; परिहरति काश्रौ २, ७, १; ३, ४, २५××; आपश्रौ; परिहरन्ते वौश्रौ १८, ३८: १८; परिहरन्ति आपश्रौ ४, १२, ८; आपश्रौ २१, ६, ६; वौश्रौ ३, २४: १४; हिश्रौ १६, ३, ६; वैगृ ६५: ६; परि<sup>३</sup>हरन्ति वौश्रौ १, १८: १७; ५, ४: ३; ९: २; परिहरत् सु १५, ४; परिहरन्तै वौश्रौ १८, ३८: १७<sup>४</sup>; ऋपरिहर वौश्रौ १, १८: १७; ४, ९: ३६; ५, ४: २; ९: ३; परिहरेत् आपश्रौ २, ३, ७; वैश्रौ; परिहरेयुः

आपश्रौ ९, २०, ९; वाश्रौ १, ४, ४, ३४; वाधूश्रौ ३, ८ ३: ९; लाश्रौ ८, ८, १६.  
ऋपरि<sup>५</sup>...वहपत् कागृ ४५, ११; परिहार्यम् वैश्रौ १४, १९: २<sup>६</sup>.  
परिहारयेत् वौश्रौ २३, ३: १४.  
**परि-जिहीर्षत्-** -र्षन् निसू ८, ६: ३०.  
**परि-जिहीर्षित-** -न्त् निसू २, ६: १; गौषि २, ७, १.  
**परि-हरण-** -णात् शांश्रौ ८, १५, ६; वाश्रौ ३, २, १, ४०; द्राश्रौ; -णाच्च वाश्रौ १, ६, ३, २०; -णे वौश्रौ २१, १५: ४३.  
**परिहरण-काल-** -ले वौश्रौ १५, २१: ३; माश्रौ ५, २, १०, ११.  
**परिहरण-प्राशन-** -न्त् आपश्रौ ३, १, ५.  
**परि-हरत्-** -न्त् वौश्रौ २१, १५: ४४; वैश्रौ १४, १९: १; वैगृ ७, ४: ३; गोगृ २, १०, ३३; वैष ३, ६, १०; -रन्तः कौगृ ३, ९, ५८.  
**परि-हरमाण-** -णः वौश्रौ २६, १८: १९; १९: ९; आपघ; -णाः वौश्रौ १७, २७: ५; २६, २५: ९; २७: २२.  
**परि-हरित्यत्-** -ण्यत् वौश्रौ ६, ३३: १; २०, १३: ३२.  
**परि-हर्तव्य-** -न्यम् वा ३, २.  
**परि, रि<sup>६</sup>-हार<sup>१</sup>-** -रः शौच ४, ११७; -रम् विघ ३, ११; -रे वैश्रौकाट<sup>२</sup>; -रेण निसू ८, ४: ३४.  
**परिहार-सू<sup>३</sup>-** -सूः आपश्रौ १९,

- a) =परि-स्वार-?। b) =ऋगृ-विशेष-। <परि स्वानासः। ऋ १, ४८५। c) =गानप्रकारविशेष-।  
d) पाठः? सपा. शांश्रौ ८, ८ परिश्रुतेषु इति पाठे। e) भाग्य. अप. पाठः। f) =आयुध-विशेष-।  
g) तु. पागम.। h) अस्त.। i) सप्र. हिघ २, ३, ३२ वज्रयित्वा इति पाठे। j) परत्परं पाठे।  
k) विघ. पाठः। l) माप., पारिभाषिक-संज्ञा-(परि-अह-शौच.)। m) विप.>नाप.(पयारिणी-। वैप १ द्र.)।  
उत्त. उप. विष्. प्र.।

१६, ११; वौश्रौ २४, ३८ : १२<sup>a</sup>;  
हिश्रौ २२, १, ८<sup>b</sup>.  
परि-हारम् आपश्रौ १२, २५, १;  
वौश्रौ ७, १४ : ४३; माश्रौ.  
परि-हार्य- -र्यः गौध ८, १२; शौच  
४, ११६; १२६; -र्यम् वौश्रौ  
१८, २० : ५; -र्याः माशि ११,  
४.  
परि-हृत, ता- -तम् आपश्रौ ६, २८,  
७; हिश्रौ २, ८, ३६; ३, ८, ६;  
-तासु आपश्रौ २२, ८, १६;  
काश्रौसं २९ : ६; वौश्रौ; -ते  
शांश्रौ १, १२, ९; वाश्रौ १, १,  
५, १४.  
परि-हृत्य आश्रौ ५, ५, १२; ६, ११;  
आपश्रौ.  
परि-हियमाण, णा- -णम् आपश्रौ  
३, १९, ६; वैश्रौ ७, १ : १; -णाः  
वैताश्रौ १६, १; -णाय भाश्रौ  
७, १०, ४<sup>c</sup>; -णासु आपश्रौ १४,  
९, ३; द्राश्रौ १५, २, ४; लाश्रौ ५,  
१०, ३; -णे निस् ३, १२ : ४५.  
परि-होम<sup>c</sup>- -मे वौश्रौ २०, १९ : १६;  
२१, १५ : ३९××.  
परि√ह्वलु> परि-ह्वालम् काश्रौ ७,  
५, ६; माश्रौ १०, ७, १४.  
परि√हे> ङपरि-ह्व<sup>d</sup>- -वम् आपमं  
१, १३, ५; वौश्रौ ४, २, ११; अप  
१, २६, ४.  
ङपरि-ह्वत- -तम् आपमं १, १३, ६;  
वौश्रौ ४, २, ११; हिश्रौ १, १६,

१७<sup>e</sup>.  
परी(रि√इ), पर्येति शांश्रौ ४, १६,  
१०; १५, ११, १××; काश्रौ;  
आपश्रौ १६, २०, १४<sup>f</sup>; हिश्रौ  
११, ६, ६१<sup>g</sup>; या ९, १५<sup>h</sup>;  
परीतः काश्रौ ५, ८, ३३; वाधूश्रौ  
४, २७ : १८; परियन्ति शांश्रौ  
१३, ११, ४; १७, १४, १३; १७,  
८; काश्रौ; वौषि ३, २, ३; ४<sup>i</sup>;  
ङपर्येपि आपश्रौ १२, १२, १३;  
हिश्रौ ८, ३, ४२ वैताश्रौ १४, १;  
ङपर्येमि आश्रौ १०, ९, ३;  
शांश्रौ १६, ६, १; लाश्रौ ९, १०,  
१०; ङपरियन्तु<sup>h</sup> आपमं १, १, ८;  
वौश्रौ १, ६, २१; ङपरीहि आपश्रौ  
१२, २२, ८<sup>i</sup>; वौश्रौ ५, १३ :  
१७; १५ : १९; ७, १३ :  
२२<sup>l</sup>××; हिश्रौ ८, ७, १४<sup>m</sup>;  
आपमं २, २, १०<sup>n</sup>; वौश्रौ  
२, ५, १४<sup>o</sup>; ङपरीत<sup>k</sup> आपश्रौ  
३, ४, ४; माश्रौ ३, ४, ४; माश्रौ  
१, ३, ३, १४<sup>p</sup>; वाश्रौ; ङपर्याणि<sup>l</sup>  
वौश्रौ २७, ६ : १६; १८;  
वैश्रौ २०, ३० : ११; १३;  
पर्येत शांश्रौ १५, ११-१२,  
१; १६, १५, १; वौश्रौ; पर्येताम्  
वाधूश्रौ ४, ३० : ११; पर्यायन्  
वाधूश्रौ ४, १९ : ३५; परीयात्  
आपश्रौ ८, १८, ३; वौश्रौ;  
परीयाताम् वौश्रौ २०, १८ :  
२६; परीयुः वैश्रौ २१, ८ :

६; द्राश्रौ; लाश्रौ ४, ३, १८<sup>q</sup>;  
ङपरीयाः द्राश्रौ १०, २, १३;  
लाश्रौ ३, १०, १२; परीयाम्  
शांश्रौ १५, ११, १; १२, १;  
वौश्रौ १८, १९ : ११; १३××;  
परि-यत्- -यन् वैश्रौ १०, ५ : २;  
द्राश्रौ १३, ३, १; लाश्रौ ५, ३, ७.  
परी(रि-इ)त्, ता- -तम् निस् ९, २ :  
९; -ताः निस् ६, ३ : १५;  
-तानाम् वौश्रौ १४, २७ : १३;  
१५××; -तायाम् शंध ३४८;  
-ते जैश्रौका ४३.  
परी(रि-इ)त्य आश्रौ १, १२, ८; २,  
४, १७; ६, १०, १३; शांश्रौ;  
अप १, ६, ६<sup>r</sup>; या १२, १३;  
परीत्यऽपरीत्य आपश्रौ ८, १८,  
६; माश्रौ.  
पर्यत्- -र्यन् आश्रौ २, ५, ३<sup>o</sup>.  
पर्यं (रि-अ)यण- -णम् काश्रौ ७१,  
१०; -णाय वाधूश्रौ ३, ११, ५;  
-णे काश्रौ २५, ३४<sup>r</sup>.  
पर्या(रि-अ)य<sup>p</sup>- पा ३, ३, ३८;  
-यः काश्रौ १०, १, ६; १२,  
६, ६; आपश्रौ; अप्राय ३, ३<sup>q</sup>;  
-यम् आपश्रौ १७, २०, १;  
हिश्रौ १२, ६, १६; २२, १, ३१;  
द्राश्रौ; -यस्य माश्रौ २, ४, ४,  
७; वैश्रौ; -याः आश्रौ ६, ४,  
७; ११; काश्रौ १२, ६, ५;  
माश्रौ; अश्रौ ८, १०; या १,  
९<sup>r</sup>; ङ; -याणाम् आश्रौ ६,

a) अर्धसंवत्सरं सूत्वाऽपरस्मिन् प्रसूयते इति वा, एकस्मिन् पुमान् एकस्मिन् स्त्रीवत्सो वा यस्या इति वा भाष्यम् । b) ष्हासूः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ.) । c) परि-यज्ञ- टि. द्र. । d) वैप १ द्र. । e) षुतं इति Böht (ZDMG [५२, ८४])? । f) पाशे. वैप १. १९५३ e द्र. । g) प्रतिपरि<sup>o</sup> इति इ. । h) पाशे. वैप १. १९५३ g द्र. । i) पाशे. वैप १. १९५३ j द्र. । j) पाशे. वैप २, ३खं. पर्येहि मंत्रा १, ६, २८ टि. द्र. । k) पाशे. पृ ७८४ g द्र. । l) पाठः? परियाणि इति संस्कृतुः टि. [वौश्रौ.] शोधः । m) परि<sup>o</sup> इति पाठः? यनि. शोधः [तु. भाष्यम्] । n) ष्ति इति पाठः? यनि. शोधः । o) पाठः? परि-यन् इति मूको. । p) भाप.> नाप. । q) उत्तरेण संधिरार्धः ।

४, १; शांश्रौ; -यान् आश्रौ ६,  
६, १; आपश्रौ; -याभ्याम् वाश्रौ  
१, ६, १, २४; ३, २, ५, ४; हिश्रौ  
१५, ६, ३२; कौसू ५८, २३;  
-ये आश्रौ ६, ४, २; आपश्रौ  
१२, १०, ११××; वौश्रौ; पा  
३, ३, ३९; -येऽ-ये मागृ १,  
१०, १९; -येण वौश्रौ १७, ९:  
१८; माश्रौ १, ४, १, २७; ४, १,  
२८<sup>१</sup>××; वाश्रौ; विघ ४३, २३;  
४४, २; पा ७, ३, ३१; -येभ्यः  
द्राश्रौ ५, ३, ६; लाश्रौ २, ७, ५;  
-येषु आश्रौ ५, १०, ११;  
वैताश्रौ १९, १७; अप १ : २९;  
-येः शांश्रौ १३, १०, ४; ७;  
आपश्रौ; -यौ आपश्रौ १२,  
२९, २: २१, १३, १७, लाश्रौ.  
पर्याय-कृत्ति- -त्तिः निस् १,  
८ : १४; २५; ३६; ९ : ५;  
-तौ लाश्रौ ६, ६, ९.  
पर्याय-कृत्ति-प्रयोग<sup>१</sup>- गौ  
लाश्रौ ६, ७, १९.  
पर्याय-तस् (ः) वैगृ १, २० : १०;  
जैश्रौका १५१.  
पर्याय-प्रत्यवरौह- -हम् लाश्रौ  
६, ६, ६.  
पर्याय-प्रभृति- -तीनाम् आश्रौ  
५, ९, २.  
पर्याय-भा(ग>)गा- ग्गा निस्  
१, ८ : १७.  
पर्याय-मन्त्र- -न्त्रान् अश्र ८, १०  
पर्याय-रोह- -हम् लाश्रौ ६, ६, ५  
पर्याय-वचन- -नस्य पावा १,  
१, ६८.  
पर्याय-विद्रोप- -पम् निस् १,

१० : २७.  
पर्याय-विष्टाव<sup>१</sup>- -वान् द्राश्रौ  
५, २, १६; लाश्रौ २, ६, ९.  
पर्याय-शस् (ः) आश्रौ १०, ७, ९.  
पर्याय-समाधि- -घयः निस् ४,  
२ : १७.  
पर्याय-सुक्त-मन्त्र- -न्त्रः अश्र  
११, ३ (२).  
पर्याय-स्थान- -नेषु लाश्रौ ६,  
६, १६.  
पर्याया(य-आ)दि- -दिषु काश्रौ  
९, ५, ४; १३, २, २५; द्राश्रौ ५,  
२, १७; लाश्रौ २, ६, १०; ६,  
१, १५; -दौ जैश्रौका १२०.  
पर्यायादि-पर्यायान्त-  
-न्तयोः लाश्रौ ७, ६, १८.  
पर्याया(य-अ)न्त- -न्ते लाश्रौ  
१०, २, १२; -न्तेषु निस् ४,  
२ : १७.  
पर्याया(य-अ)र्थ- -र्थम् पावा  
१, ३, ७.  
पर्याया(य-अ)र्हणो(ण-उ)त्पत्ति-  
-त्तिषु पा ३, ३, १११.  
पर्यायिक<sup>१</sup>- -कम् अप २ : १;  
-कैभ्यः अप ४६, ९, ७; अश्र  
१९, २२.  
पर्यायिक-वर्जम् अप २ : ५.  
पर्यै(रि-ए)व्य(त् >)न्ती- -न्त्यः  
शांश्रौ १७, ४, ८.  
परी(रि/ई)क्ष्, पर्यैक्षन्त वाधूश्रौ ४, २९:  
१३; परीक्षन्त आगृ १, ५, ११;  
२, ८, १; वैगृ ३, १४ : ८; कौसू;  
या २, १.  
परीक्षयेत् कागृ १४, ३; ४.  
परी(रि-ई)क्षा- -क्षा वृदे ५, ९४;

-क्षायाम् कप्र ३, १०, १०.  
परीक्षा(क्षा-अ)र्थ- -र्थः आपघ  
१, २९, ६; हिघ १, ७, ६२.  
परी(रि-ई)क्षि(त>)ता- -ताभिः  
शेष ४५९.  
परी(रि-ई)क्ष्य वैगृ ५, १; ३.  
परी(रि-ई)क्ष्य, क्ष्या- -क्ष्यः अप  
७०<sup>३</sup>, १२, २; -क्ष्याः विघ ८,  
६; वृदे ३, ८०; ५, १३.  
परीक्षन्त<sup>१</sup> वाधूश्रौ ४, ५९<sup>२</sup> : ३.  
परी(रि/इ)च्छ, परीच्छेत् शांश्रौ १,  
१७, ९.  
परी(रि-इ)ज्या<sup>१</sup>- -ज्या वौश्रौ २५,  
२२ : ६; -ज्याम् हिश्रौ ९, ४,  
७; -ज्यायाः काश्रौसं २९ : ८;  
-ज्यायाम् शांश्रौ ८, ४, ४;  
-ज्यायै वौश्रौ २१, २३ : १०.  
परीण<sup>१</sup>- -णम् लाश्रौ १०, १९, १.  
परीणट-साहित<sup>१</sup>- -तम् वैश्रौ ४,  
४ : २.  
परीणस<sup>१</sup>- -णसः आश्रौ ८, १, २;  
वैताश्रौ ३१, २७; -णसम् तैप्रा  
३, ७; ७, ४; -णसा निघ ३, १;  
-णसि क्षुसू ३, ११ : ८.  
परीणह- परि/णह द.  
परीणाम- परि/णाम द.  
परीणाह- परि/णह द.  
परीत- परी(रि/इ) द.  
परीतान- परि/तम् द.  
परीतोपात् परितोपात् द.  
परीन्त- परि/दा द.  
परीत्य परी(रि/इ) द.  
परीदाय परि/दा द.  
परी(रि/इ) घ, न्य, परीन्घे आपश्रौ  
१६, ९, ५; हिश्रौ १, ३, २४;

a) क्वचित् वा. क्वि. । b) पस. > दस. । c) समाहारे दस. । d) वैप १ द. । e) पाठः ? पर्यैक्षन्त इति संस्कृतः शोधः । f) परियज्ञ टि. द. । g) अर्थः व्यु. च? । = कुक्षेत्रभूम्येस्सतप्रदेश- इति भाष्यम् । h) पाठः ? (तु. ण्वत्-स<sup>१</sup> इति संस्कृतः टि.) । पूष. = परीणह- । i) वैप १, १९५४ m, p. d. ।



पर्येन्द्र वाधूश्रौ ४, २९: १४;  
परि... ऐन्द्र वाधूश्रौ ४, २९:  
१५-१७; १८<sup>२</sup>; १९; परीन्धीत  
माश्रौ १, ५, १, १८.  
परी(रि-इ)ध्य- -ध्यः आपश्रौ  
१४, ३४, १; वीश्रौ २९, ६: ३;  
वैश्रौ २१, १७: ३; हिश्रौ १५,  
८, ४४.  
परी(रि-इ)न्ध<sup>१</sup>- -न्धेन वीश्रौ २,  
१४: १; ५, १: २९.  
परीप्सत्- प्रसृ. पर्या(रि/आ)प् द्र.  
परी-माण- परि/मा द्र.  
परीर- पाठ ४, ३०.  
परी-चाद- परि/वद् द्र.  
परी-चाप- परि/वप् द्र.  
परी-वृत्- परि/वृ (आच्छादने) द्र.  
परी-शास- परि/शस् द्र.  
परी(रि/इ)प् (गतौ) > परीष्टि-, पर्ये  
(रि-ए)षणा- पावा ३, ३, १०७.  
परी(रि-इ)ष्ट- परि/यज् द्र.  
परीसान<sup>२</sup>- -नम् अप ४८, ८०.  
परी-हार- परि/हृ द्र.  
?परुक्णाः<sup>३</sup> भाश्रौ ५, १९, ८.  
परुच्छेप<sup>४</sup>- -पः ऋअ २, १, १२७;  
वृदे ३, ५६ शुअ; या १०, ४२०<sup>५</sup>;  
-पस्य चाअ ४१: २०; या १०,  
४२; -पात् ऋअ ३, २१; वृदे  
३, १२५; -पे वृदे २, १२९;  
ऋप्रा २, ६५.  
पारुच्छेप<sup>६</sup>- -पम् ऋअ २, १,  
१२७.  
पारुच्छेपी- -पीः शाश्रौ १०,

७, २; वीश्रौ १६, ५: १८;  
२६, १४: ४; वैताश्रौ ३१,  
२७; -पीनाम् आश्रौ ७, १२,  
१; -प्यः आश्रौ ८, १, ११; १५.  
पारुच्छेपि- -पिः ऋअ २, ९,  
१११; साअ १, ४६३.  
परुच्छेप-ऋच्- -ऋचः उस् ३, ६.  
परुत्<sup>७</sup> पा ५, ३, २२; पाग १, ४, ५७<sup>८</sup>;  
पावा ५, ३, २२.  
परुत्-त्- पावा ४, ३, २३.  
परुत्<sup>९</sup> > रुत्-क<sup>१</sup>- -कैः आपश्रौ  
५, २७, ११.  
परुप<sup>१०</sup>- पाठ ४, ७५; -षः सु २३, ५;  
-षम् सु ९, २; आपध १, ३१,  
५; -पाः अप ६३, ४, ९; वीध  
२, ३, ४०; -पे या २, ६१<sup>११</sup>.  
परुपां (प-अं)सक- (> पारुपांस-  
किन्-) पुरुपांसक- टि. द्र.  
परुष्णी<sup>१२</sup>- -ष्णि या ९, २६<sup>१२</sup>;  
-ष्णाम् वृदे ६, ९६<sup>१३</sup>; -ष्ण्याम्  
ऋप्रा ८, २५<sup>१४</sup>.  
परुस्<sup>१५</sup>- पाठ २, ११७; -पैरुः वीश्रौ  
६, १४: १०; माश्रौ १, १, १,  
३३; वाश्रौ १, २, १, १६; हिश्रौ  
१, २, ३२; -रुःऽ-रुः तैप्रा ८,  
३२<sup>१५</sup>; -रुषः आपश्रौ २३, १३,  
३<sup>१६</sup>; -रुषःऽ-रुषः शुप्रा ३,  
३७<sup>१७</sup>; -रुषा वीश्रौ ६, १४:  
१०<sup>१८</sup>; -रुषि शुप्रा ३, ३७<sup>१९</sup>;  
-रुषिऽ-रुषि भाश्रौ ३, १५,  
३; या १०, ४२; परुःपु कौसू  
१२४, ५<sup>२०</sup>; -रुषि आपश्रौ ५,

१९, ४<sup>२१</sup>; वीश्रौ १८, ३२: १३;  
भाश्रौ.  
परुषि-दित<sup>२२</sup> > <sup>२३</sup>त-पूर्ण-घृत-  
विदग्ध<sup>२४</sup>- -ग्धम् मीसू ३, ४, ११  
परुष<sup>२५</sup>- पाठभो २, ३, १६६.  
परुष-क<sup>२६</sup>- -कम् शाश्रौ १५, १९; १.  
परे(रा√इ), परैति वाश्रौ १, ६, ६, २४;  
परायन्ति भाश्रौ ८, २०, ३;  
परैतु<sup>२७</sup> शाश्रौ ४, १६, ५; कौश्र ५,  
८, ५; पारेहि आपश्रौ २१, ४;  
१; वैताश्रौ १०, १७; निसू;  
या ६, १२; ९, ३३; ११,  
७; पारेत आपश्रौ १, १०,  
७<sup>२८</sup>; ५, १८, १; वीश्रौ ३, ११ :  
२२<sup>२९</sup>; ५, १५: १७<sup>३०</sup>; भाश्रौ<sup>३१</sup> १,  
९, १२; ८, २०, ४; हिश्रौ २, ७,  
५१<sup>३२</sup>; ३, ४, ५४; वैश्र ४, ४:  
२४<sup>३३</sup>; अप्रा ३, २, ६; पारेतन<sup>३४</sup>  
आश्रौ २, ७, ९; माश्रौ १, १, २,  
१४; ३७; ७, ६, ५२; वाश्रौ १, २,  
३, १४; ३२; ७, ४, ५३; पाराम्  
पुतन ऋप्रा २, ७२; १०, ३; ११,  
१०; उस् २, १८; परैयात् हिश्रौ  
७, ८, ५४.  
पाराम्(रा-अ)यण<sup>३५</sup>- -ण विध ९८,  
९९; -णः अप्राय १, ४<sup>३६</sup>; -णान्  
विध १, ६४; -णे आपश्रौ १३,  
२०, १; वीश्रौ १०, २४: १८;  
वैश्रौ १८, १५; ५; वीश्र ३, ५, १८.  
पाराम्-यत्- -यते आश्रौ १, १२,  
३४; आपश्रौ; -यन् आपमं २,  
११, २६.

a) नाप. (अग्नि-). b) = उदर-। व्यु. ?। c) पाठः? परुत्काः (परुष्मन्तः) इति शोधः (तु. सप्र. आपश्रौ ५, २७, ११ परुत्कैः इति पाभे.)। d) वैप १ द्र.। e) = सूक्त-। f) = पूर्वसंवत्सर-। व्यु. ? पाप्र. <पर- <पूर्व- इति। g) तु. पागम.। h) = परुस्- (तु. वैप १ परुच्छेप- टि.)। व्यु. ?। i) विप.। मत्वर्थीयप् ठञ् > कः प्र. (तु. भाष्यम्)। परुष-क- इति C.। j) पाभे. वैप १, १९५५। द्र.। k) उप. <√दा (अवखण्डने)। l) समाहारे द्रस.। m) = वृत्तः, तत्फल-। व्यु. ?। n) स्वार्थे कः प्र.। o) पाभे. वैप १, १९५६। द्र.। p) पाभे. वैप १, १९५६। द्र.।

परे(रा-इ)त- -ताः आपश्रौ १६,  
२५, २; वैश्रौ १८, १८: ३;  
हिश्रौ ११, ७, ४२; कौश्र ३, २,  
१; शांश्र ३, २, २; आमिश्र ३, २,  
५: ४.

परे(रा-इ)त्य आपश्रौ ७, २७, १५;  
९, २, ४××; काश्रौ.

परे(रा-ई)विवस्<sup>१</sup>- -वांसम्<sup>२</sup> आश्रौ  
२, १९, २२; शांश्रौ १५, ९,  
५××; कौश्र; या १०, २००.

?परेयुवस्<sup>३</sup>- -वांसम्<sup>२</sup> वैश्रौ २०,  
२२: १; आमिश्र ३, ५, २: १;  
वौपि १, १: १९; २: १; हिपि  
१: १८.

?परेकौति अप ४८, ११६.

परे(रा√ई)क्ष, परेक्षते आपश्रौ १२,  
२०, १०; वौश्रौ ७, १०: १६;  
१८; वैश्रौ; परेक्षते वौश्रौ ७,  
११: ६; परेक्षन्ते वौश्रौ ७, ११:  
१३; २०; परेक्षेत हिश्रौ ८, ५,  
३८.

परेक्षयति वौश्रौ ४, ४: ३१.

परोक्ष-, ङन्व्यूति- प्रश्रु. परस्- द्र.

परो(रा-उ)पिणह<sup>१</sup>- -पिणक् शुश्र २,  
१९९; ४, ८४; १०७; अश्र ६,  
२३१; ७, ५५××; पिं ३, २१;  
-पिणहः अश्र २, ११; ६, २;  
-पिणहम् शुश्र ४, २०; -पिणहौ  
अश्र १८, १.

परोपिणह-महापडिक्त- -डुक्ती शुश्र  
२, ३३९.

पर्गा- पर्णा- टि. द्र.

पर्चयत्- √पृच् द्र.

पर्जन्य<sup>१</sup>- पाठ ३, १०३; -न्यः काश्रौ  
२५, १२, ८१; आपश्रौ ४,

६, १; १०, १, १४××; वौश्रौ;  
या २, २२; ४, २१; २७; ७,  
८; १०; १०, १००; १११;  
-न्यम् आपश्रौ ८, १, ४१;  
वाधूश्रौ ३, ५०: ११; पाश्रु  
२, १३, २; आमिश्र; शंघ ११६:  
५५१; वृदे २, ३७; या ९, ६;  
-न्यस्य आश्रौ १, ३, २३;

वौश्रौ ६, १५: १७; २७, १४:  
४; आपमं; -न्याः वौश्रौ १८,  
१८: १६; आमिश्र २, ५, १०:  
२८; ११: २७; या ६, २२; ७,  
२३; -न्यात् अश्र ६, २; ३;  
-न्यान् आमिश्र २, ५, ११: २८;

-न्याय आश्रौ २, १५, २१;  
शांश्रौ ३, १३, ४, आपश्रौ; -न्ये  
वौश्रौ १०, ४८: २८१; -न्येन  
आमिश्र २, ५, १०: २७१; वृदे  
१, ११७; या ७, ५.

पर्जन्य<sup>२</sup>- -न्यः अप ४८, ४४१;  
-न्यम् आपश्रौ ८, १, ३; वौश्रौ  
५, १: ८; भाश्रौ; -न्यस्य  
आपश्रौ ८, १, ४; वैश्रौ ८, ३:  
८; -न्याः शांश्रौ १६, ९, २९;  
आपश्रौ २०, २३, ११; -न्यान्  
काश्रौ २०, ८, ३०; -न्याय  
कौश्र ३, १०, १११; -न्ये  
आपश्रौ ८, १, ४; वौश्रौ.

पर्जन्य-जिन्वि(त>)ता<sup>३</sup>- -ताम्  
या ९, ६०.

पर्जन्य-पत्नी<sup>४</sup>- -न्ति कौश्र १०६,  
७१.

पर्जन्य-प्री(त>)ता- -ताम् या  
९, ६.

पर्जन्य-मित्रा(त्र-आ)दि- बहु-

देवता- >०त्य- -न्यम् अश्र  
१, १.

पर्जन्य-सु(ष्ट>)ष्टा- -ष्टाः अप  
१, ४०, ३; अशां १०, ३.

पर्जन्य-स्तुति-संहृष्ट- -ष्टान् ऋश्र  
२, ७, १०३.

पर्जन्या(न्य-अ)ग्नि- -ग्नी वृदे ५,  
३९.

पर्जन्याग्नि-देव(त>)ता<sup>५</sup>- -ता  
ऋश्र २, १, १६४.

पर्जन्या(न्य-अ)ग्नि-विवस्वत्-  
-स्वताम् वृदे ४, ३८.

पर्जन्या(न्य-आ)त्मन्- -त्मभ्यः  
वौश्रौ ७, ४: १५.

पर्जन्या(न्य-अ)निल-भास्कर- -राः  
वृदे ७, २८.

√पर्ण पाधा. चुरा. उभ. हरितभावे.

१०७- पाठ ३, ६; पाग ४, २, ९०;  
३, ७६; ५, २, ९७; १००<sup>६</sup>; -र्णः  
आपश्रौ ५, २, ४१; वौश्रौ २, ७:  
१७; १२: ४; १४, २९: २०;  
वाधूश्रौ; -र्णम् शांश्रौ ४, १६,  
५१; आपश्रौ १, १४, ६××;

वौश्रौ; -र्णस्य वौश्रौ १४, २९:  
२०; वाधूश्रौ ३, ४१: २९; ४,  
६४<sup>७</sup>: ५; -र्णानि वौश्रौ १, ३:  
१; वैश्रौ ३, ५: ७; आपश्रु २०,  
५; कप्र ३, ४, ३; अप २०, ३,  
३; -र्णे वौश्रौ ५, १६: १०;  
जैश्र १, २: १४१; अप ७०<sup>८</sup>,  
७, १५; ७१, ११, २; वैध ३, ५,  
१३; आश्रयो १२, ४; -र्णेन  
वौश्रौ २४, ८: १२; १३; २८,  
८: १४; भाश्रौ ९, ३, ५; वौश्रु  
१, ७, ३४; अश्र ४, १; ३;

a वैप १ द्र. । b) पामे. वैप १, १९५७ द्र. । c) ण्यि> ण्यु इति वाचि. द्र. । d) = छन्दो-

विशेष- । कस. । e) पाठः ? । अपु २१९, २४ स्वजन्यम् इति पामे. । f) विप. । साऽस्य देवतीयायर्थे अण्  
प्र. । g) विप. । वस. । h) तु. पागम. ।

-र्णेषु आपय २०, १४; -र्णैः  
 आपय २, २२, २; २३, २.  
 १पर्ण- पा ४, ३, ७६; -र्णः  
 कौय २, ६, ९१; कप्र १, ८, १२;  
 -र्णान् गोय १, ७, १५.  
 पर्ण-त्रैल्वा (ल्व-आ) इवत्य-  
 -स्थाः गोय २, १०, १०.  
 पर्ण-कपाय- -यः वाधूश्रौ ४, १०४ :  
 १५.  
 पर्णकपाय-पक्व- -क्वम् काश्रौ  
 १६, ३, १५.  
 पर्ण-कुटी- -टीम् शंघ ३८७; विध  
 ५०, १.  
 पर्ण-कृच<sup>६</sup>- -चः शंघ ४१७.  
 पर्ण-कृच्छ<sup>६</sup>- -च्छः शंघ ४१७;  
 विध ४६, २३.  
 पर्ण-स्व- -स्वम् वौश्रौ १४, २९ :  
 २०; वाधूश्रौ ३, ४१ : २९; ४,  
 ६४ : ५.  
 पर्ण-स्वर- -रुपु आमिगृ ३, ७, ३ :  
 १५; वौपि २, १, ७; -रुणाम्  
 वौश्रौ १४, २९ : २१; २०, ३ :  
 २४; आमिगृ.  
 पर्ण-पुट- -टम् भाय २, १० : २;  
 हिगृ २, ९, ५; -टे आपय २०, ७.  
 पर्ण-मणि<sup>६</sup>- -णिम् अय ३, ४.  
 पर्ण-मय- -यम् वौश्रौ १२, ४ : २;  
 १० x x; आमिगृ; -यान् वौश्रौ  
 १४, १६ : १७<sup>३</sup>; -यानि काठश्रौ  
 ७; १२७; काण्ड ४६ : ७; -ये  
 वौश्रौ १७, ३६ : ५; १८, १ :  
 १३ x x; -येन आपयश्रौ १८, ९,  
 १७; वौश्रौ १२, ४ : १३; ८ :

८ x x; वाश्रौ; -यैः हिश्रौ १४,  
 ४, ४१.  
 पर्णमयी- -यी आपयश्रौ १,  
 १५, १०; भाश्रौ १, १६, ५;  
 -यीभ्याम् वौश्रौ १८, ९ : २;  
 -य्याम् वौश्रौ १४, १६ : २३;  
 १९ : २४; -य्यौ वौश्रौ १८,  
 ८ : ६.  
 पर्णमय-वारण- -णौ वौपि १,  
 १५ : ८२.  
 पर्णमय-वारण-वैतस-शमीमय-  
 -यान् आमिगृ ३, ८, १ : १०<sup>०</sup>;  
 वौपि १, १४ : १०.  
 पर्णमय-लुव- -वम् वौपि ३,  
 ६, ६.  
 पर्ण-मुच्- पाठवृ २, २२.  
 पर्ण-मूल-फला(ल-अ)दान- -नः  
 शंघ ३८७.  
 पर्ण-रुह- पाठवृ २, २२.  
 पर्ण-ल- पा ५, २, ९७.  
 पर्ण-लोष्टा(ष्ट-अ)श्मन्- -श्मभिः  
 गौघ ९, १५.  
 १पर्ण-वल्क<sup>६</sup>- -ल्कः आपयश्रौ १,  
 १३, १५<sup>१</sup>; -ल्कम् आपयश्रौ १,  
 ११, १०; वैश्रौ ३, ८ : ७; हिश्रौ  
 १, ३, १७; -ल्काः आपयश्रौ १,  
 १४, १; -ल्कैः हिश्रौ १, ३, ५३.  
 पर्ण-वल्कल<sup>६</sup>-> °ल-फा (एट>)  
 ष्टा<sup>६</sup>- -ष्टाभिः माश्रौ ६, १,  
 २, २.  
 पर्ण-विहार<sup>६</sup>- -रः भाय २, ९ : ८<sup>६</sup>.  
 १पर्ण-शद<sup>६</sup>- -दः<sup>६</sup> आश्रौ ८, ३,  
 २३; वैताश्रौ ३२, २५.

पर्ण-शाखा- -खया आपयश्रौ ८, ९,  
 १२; वौश्रौ १०, ९ : १८; २२,  
 २ : २५; आमिगृ; -खा वौपि  
 १, १४ : १२; -खाः आमिगृ  
 ३, ५, २ : १५; ६, ३ : ६; वौपि  
 १, २ : १८; -खाम् काश्रौ ४,  
 २, १; वौश्रौ १, १ : ७; १०,  
 ९ : १५; २४, २३ : ३; माश्रौ  
 १, १, १, १२; -खायाम् वौपि  
 ३, ४, १६; -खासु वौश्रौ ११,  
 ११ : ५; -खे आमिगृ ३, ६,  
 १ : २६; ३ : ३३; ८, ३ : ३९; वौपि.  
 पर्ण-शुप्- पाठवृ २, २२.  
 पर्ण-सद<sup>६</sup>- -दः<sup>६</sup> शाश्रौ १२, २३, ३.  
 पर्ण-सेव<sup>६</sup>- -वान् वौश्रौ ५, ११ :  
 ३; -वाभ्याम् वौश्रौ १४, १३ :  
 २६; २९; -वेपु वौश्रौ ५, १५ :  
 ४; -वैः वौश्रौ ५, १५ : २४.  
 पर्ण-होम- -मः अप ७०<sup>३</sup>, ९, २.  
 पर्णा(र्ण-आ)शिन- -शी विध २५,  
 १०.  
 पर्णिल- पा ५, २, १००.  
 पर्णिय- पा ४, २, ९०.  
 २पर्ण<sup>६</sup>-> पर्णिय- पा ४, २, १४५.  
 ३पर्ण<sup>६</sup>- (> २पर्ण- पा.) पाग ४,  
 १, ११२.  
 ४पर्ण- (> पर्ण-स- पा.) पाग ४, २,  
 ८०.  
 पर्णक<sup>६</sup>- पाग २, ४, ६९.  
 पर्णकायन- -नाः वौश्रौ ४५ : ६.  
 २पर्णवल्क<sup>६</sup>- पाग ४, १, १०५.  
 पर्णवल्क- -ल्काः वौश्रौ ४५ : ६.  
 पर्णवल्क्य- पा ४, १, १०५.

a) = व्रत-विशेष- ।

b) वैप १ द्र. ।

c) 'वारणवे' इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. वौपि.) ।

d) दस. ।

e) विप. (२अप्-) । तृस. उप. = फाणित- [ कपायित- ] ।

f) = कर्म-विशेष- । पस.

पूप = पलाशपत्र- ।

g) सप्र. हिगृ २, ९, १ वौढयविहारः इति पाभे. ।

h) पाभे. वैप १, १९५९ । द्र. ।

४) = पर्ण-शद-

j) पस. उप. = वृन्त- (तु. संस्कर्ता) ।

k) भारद्वाजदेशवाचिनश् च &gt; इयः प्र. ।

l) व्यप. । व्यु. ? ।

पर्णसि- पाठ ४, १०७.

पर्णाटि<sup>१०७</sup>- पाग २, ४, ६३.पर्णाढक<sup>१</sup>- पाग २, ४, ६३.

पर्णी- पाग ४, २, ८२; ४, ५३०.

पर्णुसि- पाठभो २, १, २४०.

पर्त- √पृ, पृ द्र.

✓पर्द पाधा. भ्वा. आत्म. कृत्सिते शब्दे.

✓पर्प पाधा. भ्वा. पर. गतौ.

पर्पा<sup>१</sup>- पाठ ३, २८; पाग ४, ४, १०९.

पर्पिक- पा ४, ४, १०.

पर्पट- पाठभो २, २, ९८.

पर्परीक- √पृ, पृ द्र.

पर्परीक<sup>१</sup>- पाठभो २, २, २०; -का

या १३, ५१.

पर्य(रि-अ)ग्नि<sup>१०७</sup>- अग्ने आश्रौ ३, २,

९; शाश्रौ ५, १६, ८१; काश्रौ

६, ५, १; आपश्रौ; -ग्नि<sup>१</sup> आश्रौ

६, १४, ११; काश्रौ २, ५,

२२; आपश्रौ; माश्रौ १, २, ३,

२६; -ग्निम् माश्रौ १, ६, १,

२; ७, ६, ८xx; वाश्रौ; -ग्नौ

आपश्रौ ७, १५, ४; १९, १७, ९;

२०, १७, ४; वौश्रौ.

पर्यग्नि<sup>१</sup>कृ>पर्यग्नि-करण- णम्

शाश्रौ ४, २०, ४; वौश्रौ २४, ९ :

९; १० : १७; माश्रौ; -णात्

आपश्रौ १९, ८, २; वौश्रौ ५, ५ :

१७xx; माश्रौ; -णे वौश्रौ १५,

२८ : १५; २०, २८ : ६.

पर्यग्निकरण-पर्याय- ये

आपश्रौ १९, ८, ३; हिश्रौ २३,

१, ३.

पर्यग्निकरण(ण-अ)न्त<sup>१</sup>-

न्तम् शाश्रौ १५, १, २३; वाश्रौ

३, २, ६, ६२; ७, ८.

पर्यग्नि-कृत, ता- -तः अप्राय

३, २; -तम् शाश्रौ ४, १७,

१०; ९, २७, ५; काश्रौ; -तस्य

वाधुश्रौ ३, ४४ : १७; वैताश्रौ

२४, १२; -तान् काश्रौ २०, ६,

९; २३, ४, ७; आपश्रौ; -तानान्

आपश्रौ १८, २, १४; वौश्रौ;

-ताम् भाग २, १६ : ७; -ताय

शाश्रौ १५, २१, १; -तेषु शाश्रौ

१५, १५, ५; -तैः वौश्रौ १२,

४ : १२; १५, २८ : १९; १७,

१४ : १५.

पर्यग्नि-कृत्य वैश्रौ १७, १० : ७.

पर्यग्नि-स्तोक-मनोतो( ता-उ ) व्री

यमान-सूक्त<sup>१</sup>- न्तानि आश्रौ

३, १, २२.

पर्यग्न्या(ग्नि-अ)धावकुति<sup>१</sup>- वी

वैश्रु ३, १६ : १४.

पर्यङ्क<sup>१</sup>- पा ८, २, २२; पावाग ८, २,१८<sup>१०</sup>; -ङ्कम् षप ४, १, १४.पर्य(रि-अ)ङ्ख<sup>१</sup>, पर्यङ्खयातै<sup>१</sup>

आमिष्ट ३, ५, ७ : २५; वौषि

१, ७ : २.

पर्य( रि-अ)ङ्ग- > ङ्ग<sup>१</sup>- ङ्गया:

वाश्रौ ३, ४, ३, १३; लुश्रु ३,

४१; -ङ्ग्याणाम् काश्रौ २०,

७, ४; वौश्रौ १५, ३० : २६; ३१ :

१५xx; -ङ्ग्यान् शाश्रौ १६, ३,-

२८; काश्रौ २०, ६, ४; आपश्रौ;

-ङ्ग्येषु वौश्रौ २६, ११ : ६.

पर्य(रि-अ)ङ्ग, ङ्ग, पर्यणक्ति आपश्रौ

७, २, ३; भाश्रौ ७, १, ११; हिश्रौ

४, १, २०; पर्यणक्ति नाश्रौ १,

८, १, ५; वाश्रौ १, ६, १, ८.

पर्य(रि-अ)ङ्ग्य वैश्रौ १०, १ : १६.

पर्य(रि-अ)ङ्गजन- -नेन वाश्रौ ३,

२, १, १७; २, ६, ५.

पर्य(रि-अ)ट्, पर्यट्ट् गौष ९, ३६;

पर्यट्ट्युः जैश्रु २, ७ : ४.

पर्यत्- परी(रि-अ)ट् द्र.

पर्य(रि-अ)न्त- -न्तान् वैश्रौ १०, ४ :

१३<sup>१</sup>.पर्यन्ती(च>)या<sup>१</sup>- -याः आपश्रौ१२, १०, ६<sup>१</sup>.पर्य(न्य>)न्या<sup>१</sup>- -न्याः हिश्रौ७, ५, २०; ७, १३<sup>१</sup>.

पर्य(रि-अ)पे(प-अ)इ&gt; पर्यपे(प-अ)त-

-ते आमिष्ट १, १, ३ : ५०; ४ :

४३; ६, ३ : ५८.

पर्ययण- परी(रि-अ)इ द्र.

पर्य(रि-अ)र्ष, ऋपरि(अर्ष)ऋश्रु २, ९,

५२; साश्रु १, ४१६; ऋपरि(अर्षत)<sup>१</sup>

कौश्रु ४६, ८; अश्रु ६, २८.

पर्य(रि-अ)व/च्चि &gt; पर्यव-चयन-

-ने वाधुश्रौ ३, १०० : ८.

पर्य( रि-अ)व/दा ( < वौश्रु-  
खण्डने), पर्यवचति आपश्रौ १९,

२२, ११; वौश्रौ १३, २९ : १०.

a) व्यप. । व्यु. ? । b) <१पर्ण-+ √कृ इति पागम. । c) पर्णी- इति [पले] भाण्डा. पाणि. च ।  
d) नाप. । व्यु. ? । e) = दास्ययश्चकटप्रायोपवरण- इति पागम. । f) वैप १ द्र. । g) प्राञ्ज. (वैतु. विद्याधरः  
[काश्रौ ६, ५, १] वस. इति) । h) द्वि<sup>१</sup> सत् वा. क्वि. । i) अग्निम् इति पाठः? यानि. शोचः । j) विप. । वस. ।  
k) दस. > वस. । l) दस. । m) तु. पागम. । n) = सत्वा. तैश्चा ६, १, ४ । अ १०, १६, ७ तु पर्यङ्ग्याते इति,  
शौ १८, २, ५८ परीङ्खयातै इति च पामे. । o) वैप २, ३ खं द्र. । p) सप्र. आपश्रौ ७, ४, ५, मन्तान् इति पामे. ।  
q) विप. । तत्रमवीयन् छः प्र. उसं. (पा ४, ४, ११७) । r) सप्र. न्तीयाः <> न्याः इति पामे. । s) विप. ।  
भवार्थे वा इहार्थे वा यत् प्र. । t) वैप २, १९६० र द्र. ।

पर्य(रि-अ)व/घा, पर्यवदध्यात्  
 आपघ १,३,४०; १०,३०; हिघ  
 १,१,११६;३,५७.  
 पर्य(रि-अ)व/लुप् > पर्यव-लोपम्  
 वौश्रौ ६,२० : ४.  
 पर्य(रि-अ)व/शिप्, पर्यवशिष्येत्  
 वैताश्रौ ११,५.  
 पर्य(रि-अ)व/सो, पर्यवस्यति वाधूश्रौ  
 ३,६९ : १९; पर्यवस्यन्ति वौश्रौ  
 १२,५ : १; १५,१३ : १३.  
 पर्यव-सान- -नात् गोगृ १,६,१६.  
 पर्यव-सित- -त्तम् आमिगृ २, ४,  
 ६ : १.  
 पर्य(रि-अ)व/स्या > पर्यव-स्थानृ-  
 -त्तिरि पा ५,२,८९.  
 पर्यव-स्थित- -त्तः अप ७१, १, १;  
 -ताः वाध २५, १०.  
 पर्य(रि-अ)वे(व/इ), पर्यवेयात्  
 आपश्रौ ८,२१,४.  
 पर्यवेप्यत् निसू ४,८ : २८;३०;  
 ३२.  
 पर्यवे(व-इ)त,ता- -तायाम् वौश्रौ  
 २६, २७ : २४; -ते आपश्रौ  
 १५, २१,२; वौश्रौ ९, २०, ३;  
 १८, ११ : ५××; वौगृ; -तेषु  
 वौश्रौ १२,३ : ४; ९××.  
 पर्यवेत-रात्रि<sup>१</sup> - -त्रयः वौश्रौ १८,  
 ४४ : १९.  
 पर्यवेत-व्रत<sup>२</sup> - -त्तः कौसू ४२,  
 १३.  
 पर्यवेतव्रत-दीक्षिष्यमाण-  
 -णानाम् कौसू ५५,६.  
 पर्य(रि-अ)वे(व/ई)क्ष्, पर्यवेक्षेत  
 जैश्रौ १९ : ६.  
 पर्य(रि/अ)ञ् (व्याप्तौ), ऋपरि...

अङ्गोत्तु आपश्रौ ६, १७, १२;  
 हिश्रौ ६,६,१६; ऋपरि (अश्रोतु)  
 शाश्रौ २,१२, ७; काश्रौ ४,१२,  
 ३; शुश्र १,१९८; चाश्र ७ : ४.  
 पर्य(रि/अ)ञ् (भोजने) > पर्य(रि-  
 अ)श्नत् - -श्नतः शंघ १३३.  
 पर्य(रि/अ)स् (भुवि), परिष्टः ऋप्रा ५,  
 १२१; परिषन्ति ऋप्रा ५, १६१  
 पर्य(रि/अ)स् क्षेपणे), परि...अस्यते  
 अप्रा १, १, १५१; पर्यस्यति  
 वौश्रौ ६,५ : ७; ७, ४ : ८××;  
 माश्रौ; पर्यस्यन्ति शाश्रौ १८,  
 २४, २३; काश्रौसं २६ : ५;  
 वौश्रौ ४, ६ : ५५; पर्यस्यत्  
 वौश्रौ २५, १७ : ७.  
 पर्य(रि-अ)सन- -ने पावा ३,१,२०.  
 पर्य(रि-अ)स्त, स्ता- -स्तः वाधूश्रौ  
 २,१३ : ३; ४,१०६ : २; -स्तम्  
 शाश्रौ १,३, ५; वाश्रौ ३,१, २,  
 १४; -स्ताः माश्रौ ४, ७, ३;  
 -स्ताम् वाश्रौ ३,४,१,१४; -स्ते  
 वौश्रौ १४,१२ : ३.  
 पर्यस्ता(स्त-अ)क्ष- -क्षाः अश्र  
 ८,६१.  
 पर्य(रि-अ)स्य शाश्रौ २, ९, १४;  
 काश्रौ २५, ८,१२; काठश्रौ.  
 पर्या(रि-आ)स<sup>१</sup> - -सः आश्रौ  
 ६, ४, १०; शाश्रौ १२, ४-५,  
 ३; १०, ५××; द्राश्रौ; -सम्  
 शाश्रौ १२, २, ९; ११, १७;  
 माश्रौ; -सस्य शाश्रौ १२, ३,  
 २१;४,२१;५,२२; -साः आश्रौ  
 ६,४,९; ७,२,१२;५,१४; शाश्रौ  
 १२,२, ३; ३, २; -सात् शाश्रौ  
 १२,१२,४; २६,४; मीसू ५,३,

७; -सान् आश्रौ ७, १, १५;  
 शाश्रौ १२, ६, १९, -सानाम्  
 शाश्रौ ११,३,२; १२,८,४; १४,  
 ३,११; -सैः शाश्रौ १२,२,२७.  
 पर्यास-वर्जम् आश्रौ ६,४,१२.  
 पर्यास-स्थान- -नेषु आश्रौ ७,  
 ५,१४.  
 पर्यासा(स-आ)घ-तृच- -वर्जम्  
 वैताश्रौ ३९,३.  
 पर्याकारम्<sup>२</sup> आश्रौ ८,३,१७१.  
 पर्याकाजनीनाम् वाश्रौ ३, १, २,  
 ४४.  
 पर्या(रि-आ)ख्या > पर्याख्यान-  
 -ने पावा २, ४, ५४.  
 पर्या(रि-आ)गम् > पर्यागत- -ते  
 आपश्रौ ५, २२, १२; २४, ८;  
 वौश्रौ.  
 पर्यागतवत्- -वन्तम् या १०, २०.  
 पर्यागारम्<sup>३</sup> शाश्रौ १२,१८,१८१.  
 पर्या(रि-आ)चि (चयने) > पर्या-  
 चित- पाग ६,२, १४६.  
 पर्याज्य<sup>४</sup> - -ज्यम् वौश्रौ २१, १३ :  
 २६.  
 पर्याण-यजुस्<sup>५</sup> - -जुः वौश्रौ २१, १० :  
 १०.  
 पर्या(रि-आ)ण, नह्, पर्या-  
 णहति माश्रौ २,१,४,२३; पर्या-  
 नहति आपश्रौ १०, ३१, ५;  
 माश्रौ १०, १९, ५; वैश्रौ १२,  
 २२ : ४; हिश्रौ ७, ३,४; तैप्रा  
 ७,१६१.  
 ऋपर्याणह- -हम् आपमं १, ७,  
 १०; काय २६,६.  
 पर्याणहन- -नम् माश्रौ २, ५, ४,  
 ३६.

a) = परि-पन्थिन-। b) विप.। वस.। c) वैप १ द्र.। d) नाप. (अन्तिम-भाग- इति C.।  
 [शाश्रौ.]। e) वैप १,१९६१ e द्र.। f) = प्रधान-। नैप्र. < परि-आज्य- इति संभाव्येतेति भाष्यम्।  
 व्यु. ?। g) मलो. कस. पूप. = परियाण- इति ?।

पर्या-नह आपश्रौ १०, २७, १०.  
 पर्या(रि-आ)✓णी, पर्याणयति हिश्रौ  
 ११, ७, १७; आमिगृ ३, ५, ८;  
 ३; वीगृ; पर्याणयन्ति काश्रौसं  
 २८: १.  
 पर्या-णीय वीश्रौ ६, २: २७; ७, ३: १२;  
 १६, २६: १; २१, ८: २७; हिश्रौ.  
 पर्या( रि-आ )✓तन्, पर्यातनोति  
 आपश्रौ ११, ४, १५; माश्रौ १२,  
 ४, १८; हिश्रौ ७, ४, ४१.  
 पर्यादि- प्रसृ. परि द्र.  
 पर्या(रि-आ)✓घा, पर्यादधाति कौसू  
 ६१, ३२; ऋपर्याघत्त कौसू ६४,  
 १४; पर्यादध्यात् अत्राय २, ९.  
 पर्या-दधत्- -धत्तम् कौसू ६४, १४.  
 पर्या(रि-आ)घान-> ञे(न-इ)  
 ज्या- -ज्ययो: वीध ४, ६, ७.  
 पर्या-हित- -त: वैश्रौ २०, २६: ९.  
 पर्या✓नह पर्या✓णह द्र.  
 पर्या(रि✓आ)प्, पर्याप्नोति वीश्रौ ७,  
 १७: ३; ८, ७: १३; १३: १३.  
 परी(रि-ई)प्सत्- -प्सन् वाधूश्रौ ३,  
 २८: १.  
 परी(रि-ई)प्सा- -प्सायाम् पा ३,  
 ४, ५२; ८, १, ४२.  
 परी(रि-ई)प्सु- -प्सो: वाधूश्रौ ३,  
 ३१: ४.  
 पर्या(रि-आ)स, सा-> पार्यातिक-  
 पावा.) पावाग ४, ४, १; -सायै  
 वाधूश्रौ ४, ७९: २.  
 पर्या(रि-आ)सि- -सि: आपश्रौ २०,  
 ११, ८; वीश्रौ १५, १८: १५;  
 ३२: ५; ३६: १२.  
 पर्यासि-वचन- -नेपु पा ३, ३, ६६  
 पर्याप्स्य(सि-आ)थे-अहण- -णम्  
 पावा २, ३, १६.

पर्या(रि-आ)✓प्लु, पर्याप्लवते वीश्रौ  
 ६, १०: १; १०, १९: १.  
 पर्याप्लवयति माश्रौ १, २५,  
 ६; मागृ २, २१: ३.  
 पर्या(रि-आ)✓भू, पर्याभवेत् वाधूश्रौ  
 ३, ३१: ४; ३९: १९.  
 पर्याय- परी(रि✓इ) द्र.  
 पर्या(रि-आ)✓यत्, पर्यायात्तयति  
 वीश्रौ १४, २२: १५.  
 पर्या-यात्तित- -ता: वीश्रौ १४,  
 २२: २२.  
 पर्या(रि-आ)✓यु > पर्यायुवत्-  
 -वन् माश्रौ १, १, २, ५; मागृ  
 २, २, ३.  
 पर्यारिणी- पर्यै(रि✓ऋ) द्र.  
 पर्याली<sup>१</sup>(>ली ✓हृ पा.) पाग १,  
 ४, ६१.  
 पर्या(रि-आ)✓वह, पर्यावहन्ति जैश्रौ  
 ३: ७;  
 पर्या(रि-आ)✓वृत्, पर्यावर्तते वीश्रौ  
 ३, २१: १२; १८, ३२: १४;  
 ३३: ६; कौसू २४, ३०; ४६,  
 ११; या ७, १४<sup>१</sup>; पर्यावर्तते  
 वीश्रौ १४, ७: १३; २६, ७: १६;  
 वाधूश्रौ ४, १०२: ३; पर्यावर्तन्ते  
 या ७, २४; ऋपर्यावर्ते काश्रौ  
 २५, ११, २१; कौसू ४६, ११;  
 अथ ३२, १, ८; अथ ७, १००<sup>१</sup>;  
 अथ ३: ५४ पर्यावर्तते आपश्रौ  
 ६, ३०, २; ९, १४, १; माश्रौ.  
 परि ( आ...वृत्त्यात् ) शाश्रौ  
 १४, २४, ५<sup>१</sup>.  
 पर्यावर्तयति माश्रौ २, १०, ८;  
 हिश्रौ २, ४, २४; ऋपर्यावर्तयत्<sup>८</sup>  
 माश्रौ ३, ७, ४, ५१; वाश्रौ १,  
 ७, २, ४३.

पर्यावरीवर्तते वाधूश्रौ ४, १०२: ३  
 ४.  
 पर्या-वर्तन- -नम् वाधूश्रौ ४, १०२: ३  
 ५.  
 पर्या-वर्तमान- -न: वैश्रौ १५, ३५: १४;  
 हिश्रौ ८, ८, २४.  
 पर्या-वर्तयत्- -यन् आपश्रौ ३,  
 ७, १; वैश्रौ ७, ६: ८.  
 पर्या-वर्त्य आपश्रौ ३, ११, १; ११,  
 ३; वाश्रौ.  
 पर्या-वृत्त- -त्तस्य वीश्रौ ८, १०:  
 १०; -त्ते आपश्रौ १५, २१, ८;  
 वीश्रौ ९, २०: १७; माश्रौ.  
 पर्या-वृत्त्य शाश्रौ २, ९, १४; ४, ४,  
 १२; ६, ७, १०; आपश्रौ.  
 पर्या ( रि-आ ) ✓श्चिप्, पर्याश्चेपचते  
 कागृ ४०, १६.  
 पर्या(रि✓आ)स्, पर्यास्ते वाधूश्रौ ४,  
 ९५: ६; ७; पर्यास्ते, परि...  
 आसते या १२, ३२<sup>१</sup>; पर्याध्वम्<sup>१</sup>  
 आपनं २, १३, ७<sup>१</sup>; पर्यालीरन्  
 आपश्रौ १५, १६, ७; माश्रौ ११,  
 १६, १०; वैश्रौ १३, १८: ३.  
 पर्या( रि-आ )स्- पर्यै(रि ✓अ)स्  
 (क्षेपणे) द्र.  
 पर्या(रि-आ)✓सिच् > पर्या-सिच्य  
 माश्रौ १२, ३, १५; वाश्रौ ३, २,  
 ५, ५७.  
 पर्या(रि✓आ)ह, पर्याहु: आपश्रौ १९,  
 २४, ६; वीश्रौ १३, ३२: १०;  
 माश्रौ ५, २, २, ११; हिश्रौ २२,  
 ५, ६.  
 पर्या( रि-आ )✓ह > पर्या-हृष्य शाश्रौ  
 ७, ५, ४; १७, ७, ११; काश्रौ.  
 पर्या-हियमाण- -णम् हिश्रौ २, ८,  
 २०.

a) °साय इति संस्कृतुः टि. । b) तु. पासि., [पक्षे] भाण्डा. च । c) पामे. पृ १५२५ m द्र. ।  
 d) तु. संस्कृतुः टि.; वैतु. हरदत्तः <परि✓नस (क्षेपणे [तु. भू XXXV]) ।

पर्युक्त- परि/वच् द्र.  
 पर्यु(रि/उ)ञ्, पर्युञ्जति शांश्रौ ४,  
 १८, ७; माश्रौ १, ६, १, १;  
 वाश्रौ; पर्युञ्जन्ते आश्रौ ६, १२,  
 ७; ऋपर्युञ्जामि<sup>३</sup> आश्रौ २, २,  
 ११; माश्रौ १, ६, १, १०; वाश्रौ  
 १, ५; २. १५<sup>६</sup>; पर्युञ्जत वाग् १,  
 ३७; पर्युञ्जेत् आश्रौ २, २, ११;  
 १३; वाश्रौ.  
 पर्यु(रि-उ)ञ्ज- -णम् आश्रौ २,  
 ४, २०; २५; शांश्रौ; कौश्र १,  
 ५, २९<sup>१०</sup>; शांश्र १, ९, १७; -णात्  
 आश्रौ २, ४, २२; -णे वाग् ४, ३.  
 पर्युञ्जणी- -णीम् कौस्  
 ८७, २४; ८९, ११.  
 पर्युञ्जण-परिसन्वृहणो(न-उ) परि-  
 पुष्यकरण- -णैः वैश्रौ २, १: १४.  
 पर्युञ्जण-वर्जम् द्राग् १, ५, १६.  
 पर्युञ्जणा(ण-अ)न्त- -न्तान्  
 गोश्र १, ३, ५.  
 पर्यु(रि-उ)ञ्ज- -ञ्च् वैश्र ३, ५,  
 १९<sup>९</sup>.  
 पर्यु(रि-उ)ञ्ज्य शांश्रौ २, ६, १०; ४,  
 ३, ७××; काश्रौ.  
 पर्यु(रि-उ)द्व- -यम् काश्रौ ४, ७,  
 २२; १५, ११.  
 पर्यु(रि-उ)द्/अस्(क्षिपणे) > पर्युद्-  
 वास- -सः पावा १, १, २७.  
 पर्युद्वास-सामर्थ्य- -थ्यात्  
 पावा ६, ४, १७१; ७, ३, ८५.  
 पर्यु(रि-उ)प/धा, पर्युपद्घ्यात् आपश्च  
 २०, २; ७; हिश्र ४, १४; ६,  
 ३९; ४७.  
 पर्यु(रि-उ)प/लिम्, पर्युपलि-  
 म्पति गोश्र १, ५, १४.

पर्यु(रि-उ)प/विश्, पर्युपविशेते  
 आपश्रौ २०, १९, ६; पर्युप-  
 विशन्ते वैश्रौ १५, १३: १;  
 २४: ७; हिश्रौ ८, ३, २२; १३,  
 ६, २५; पर्युपविशन्ति आश्रौ  
 ६, १०, १३; काश्रौ ७, ६, १५;  
 ९, ४, १; आपश्रौ ९, ११,  
 २३<sup>९</sup>××; वैश्रौ; हिपि २३:  
 २७<sup>९</sup>; पर्युपविशेयुः वैश्रौ २०,  
 १६: ३५.  
 पर्युपविश्य काश्रौ १२, २, ४;  
 आपश्रौ २१, १०, १३<sup>१</sup>; वैश्रौ;  
 आमिगृ ३, १०, ५: १०<sup>९</sup>.  
 पर्युपवेशन- -नम् काश्रौ ९, ५, १०.  
 पर्युपवेशन-सामर्थ्य- -थ्यात्  
 काश्रौ ९, ५, १.  
 पर्यु(रि-उ)प/स्त, स्तृ > पर्युप-  
 स्तारम् वैश्रौ १०, ५३: १.  
 पर्युप-स्तीर्थ वैश्रौ २०, २४: ३८;  
 २४, ३३: २२.  
 पर्यु(रि-उ)प/स्था > पर्युप-स्थित,  
 ता- -ता नाशि २, ८, २; -ते  
 अय ७०<sup>३</sup>, १६, ४.  
 पर्यु(रि-उ)पा(प/अ)स्(क्षिपणे), पर्यु-  
 पास्यति वैश्रौ १२, १०: १३.  
 पर्युपा(प-अ)स्य वैश्रौ १०, ५७: २१;  
 ११, ७, १०××; नाशि २, ८, ७.  
 पर्यु(रि-उ)पा(प/आ)स्, पर्युपासेत्  
 शंघ ४४०; वृदे २, ४९.  
 पर्युपासेत् आमिगृ २, ४, ७: १७.  
 पर्युपा(प-आ)सित- -तम् वैश्र ३,  
 १, २२.  
 पर्यु(रि-उ)पो(प/उ)प् (दाहे), पर्युपो-  
 पेत् वैश्रौ २०, ३१: २२.  
 पर्युपो(प-ओ)षण- -णम् वैश्रौ १४,

१३: १४; -णे वैश्रौ २०, ३१:  
 २२.  
 पर्युप्त- परि/वप् द्र.  
 पर्यु(रि-उ)लूखल<sup>१</sup> (> पर्युलूख-  
 ल्य- पावा.) पावाग ४, ३, ५८.  
 पर्यु(रि/उ)प्, पर्योषति माश्रौ १,  
 ७, ६, ५४; ८, ६, २३.  
 पर्यु(रि-उ)पित- परि/वस् (निवासे)  
 द्र.  
 पर्युह्य, पर्युह्यमाण-, °माना परि  
 /वद् द्र.  
 पर्यु(रि/ऊ)ह् (प्रापणे), पर्युहते  
 माश्रौ २, ५, ५; १०, ६, ११,  
 पर्युहति काश्रौ ६, ३, ९; ८, ५,  
 २२; आपश्रौ १५, ४, ९; वैश्रौ;  
 पर्युहतः भाश्रौ ११, ८, २;  
 ऋपर्युहे द्राश्रौ ३, ३, २४; लाश्रौ  
 १, ११, १५; ऋपर्युहामि आपश्रौ  
 ११, १३, ७; १५, ४, ९; वैश्रौ;  
 ऋपर्युह वैश्रौ १, ८: ७; १०××;  
 हिश्रौ १, ६, १२.  
 पर्यु(रि-ऊ)हण- -णम् हिश्रौ ७,  
 ७, ९.  
 पर्युहण-परिदंहण-परिषेचन-  
 -नानि आपश्रौ ११, १०, ३.  
 पर्युहणा(ण-आ)दि- -दि काश्रौ  
 ८, ५, ३१; -दीनि वैश्रौ १४,  
 ११: २.  
 पर्यु(रि-ऊ)ह्य आपश्रौ १, १२, ३; २,  
 ५, ६××; वैश्रौ.  
 पर्यु(रि/ऊ) > पर्या(रि-आ)रि(न् >)  
 णी- -णी आपश्रौ १९, १६, ११;  
 वैश्रौ २४, ३८: १२; हिश्रौ २२,  
 १, ८; -णीः वैश्रौ १५, ७: ३६;  
 -णीम् माश्रौ ५, २, १, २३.

a) पाशे. वैप २, ३६. परिपिञ्चामि तैत्रा २, १, ११, १<sup>३</sup> टि. द्र. ।

b) णनम् इति पाठः ? यनि.

शोघः (हु. शांश्र.) । c) वैतु. मैस् [१९०४ ई.] 'द्वयन् इति । d) वस. ।

e) पाशे. पृ ३०३ ष द्र. ।

f) वैप १, १९६२ j द्र. । g) = आहुति- ।

पर्यु(रि-√ञ्)प् (गतौ), पर्युपति शांश्रौ  
 १७,१०,९; १५; काश्रौ ६, ३,  
 १०.  
 पर्ये(रि-आ-√इ), पर्यायन्ति वाश्रौ ३,  
 २,५,४७; ङपर्येहि आपश्रौ ३,  
 १९,६; भाश्रौ ३,१७,४; माश्रौ.  
 पर्ये(या-इ)व्य शांश्रौ १५, १८, १;  
 १९,१; १७,११,४.  
 पर्येपणा- परी(रि-√इ)प् द्र.  
 पर्येहि<sup>१</sup>- (>ही- पा.) पाग ४, १,  
 ७३.  
 पर्यो(रि-ओ)ष्ट- (>पायोष्टय-पावा.)  
 पावाग ४,३,५९.  
 √पर्च् पाषा. भ्वा. पर. पूरणे.  
 पर्च्<sup>२</sup>-र्च्: नाशि १, ६,८; -र्च्: भाश्रौ  
 ६,१५,१४; माशि २,१०.  
 र्पर्वत<sup>३</sup>- (>र्पर्वत- पा.) पाग ४,  
 ३,९३.  
 र्पर्वत<sup>४</sup>- पाठ ३, ११०; पावा ५,२,  
 १२२; -त: आश्रौ २,१३, ७१;  
 शांश्रौ ३, १५, १५; आपश्रौ;  
 अप ४८, १०००; वृदे २, ३;  
 निघ १, १०१; या १, २०१;  
 ६,५; ७,१०; ९,८; -तम् कौसू  
 ५१,७; अप; शंघ ११६: ५६; या  
 १०, ९१; -तस्य काश्रौ १५,  
 ६, ८; वौश्रौ; -ता: आपश्रौ  
 १४,२७,७१; भाश्रौ १०, १८,  
 १०१; हिश्रौ; या ९, ९१;  
 -ङतात् आश्रौ ८,११,१; शांश्रौ  
 ६, १०, २; कौसू; -तान् आश्रौ  
 ६,२,१११; शांश्रौ ८,२५, ११;  
 हिश्रौ; -ङतानाम् आश्रौ ६,

१४, १८; ९, ५, २; २८, १३;  
 आपश्रौ; पाठ १, ५, १०<sup>५</sup>; या  
 ९,३९; ११, ३७; -तानि अप  
 ६८,१,४९; -ते वौश्रौ १०,४:  
 २८१; माश्रौ ६,२, ४,८; गोश्रु;  
 पा ४, ३,९१; ५,४,१४७; -तेन  
 आश्रौ ६,६,११; आपश्रौ ९,१२,  
 ४; १४, २२, ३१; भाश्रौ; -तेषु  
 कौसू ११५, २१; अप ६२,३,४;  
 शंघ ९९; विध ८५, ५८; ९९,  
 १६; -ङतै: वौश्रौ २, १०:  
 ३; आपमं २,१९,४; आश्रु.  
 ङर्पर्वत(>)ती<sup>६</sup>-ती<sup>६</sup> माश्रौ  
 १,२, २, २६; वाश्रौ १, २,४,  
 ६१; ६२; -ङत्य: अप ४८,  
 ७६; निघ १,१३.  
 ङर्पर्वते(य>)यी<sup>७</sup>-यी<sup>७</sup>  
 आपश्रौ १,२१, ३; वौश्रौ १,७:  
 ७; भाश्रौ १,२३,३; वैश्रौ ४,८:  
 ५; हिश्रौ १,५,८१.  
 पर्वत-ग<sup>८</sup>-गा: वौश्रौ १८,४७:७.  
 पर्वत-नामन्-मभि: या २,२१.  
 ङर्पर्वत-रूप<sup>९</sup>-पम् आपमं २, ९,  
 १; हिश्रु १,११,५.  
 पर्वत-भेषज-जम् आपमं २,९,११  
 पर्वत-मस्तक-के विध ७०,१७.  
 ङर्पर्वत-वर्चस-सम् वौश्रौ १७,  
 ४२: ५; आपमं २,९, १; भाश्रु  
 २,२२: ७.  
 पर्वत-वत् वृदे ४,५.  
 पर्वता(त-अ)ग्र-ग्रम् अप ६८,२,  
 ४; -ग्रान् अप ६८,५,२.  
 पर्वता(त-अ)न्तरय<sup>१०</sup>-ये आपश्रौ

१४,२०,४१.  
 पर्वता(त-अ)युष-पम् आपमं २,  
 ९,११.  
 ङर्पर्व(त>)ता-वृष्<sup>११</sup>-वृष्: ऋषा  
 ९,१७.  
 पर्वति<sup>१२</sup>-ति: वौश्रौ १,७: ७.  
 पर्वतीय-पा ४,२,१४३.  
 पर्वते-ष्ठा<sup>१३</sup>-ष्ठा<sup>१३</sup> या ६,३१.  
 ङर्पर्व(त्य>)त्या<sup>१४</sup>-त्या<sup>१४</sup> आपश्रौ  
 १, २१, ३; वौश्रौ १, ७: ६;  
 भाश्रौ १,२३,३; वैश्रौ ४,८: ४;  
 हिश्रौ ७,५,९.  
 र्पर्वत<sup>१५</sup>-त: ऋषा २,८, १२; साव  
 १, ३८४; ३९४; अश्रु २०,  
 १११?  
 पार्वतायन-, पार्वति- पा ४,१,  
 १०३.  
 र्पार्व(त>)ती-तीम् शंघ  
 ११६: २५.  
 पर्वत-नारद-दयो: चाश्रु ३९: ९;  
 -दौ शांश्रौ १५,१७,१; ऋषा २,  
 ९,१०४; साश्रु १,५७४; ५७५.  
 ?पर्वताष्टीरा: सु २५,५.  
 पर्वन्<sup>१६</sup>- पाठ ४, ११३; -र्च् आपश्रौ  
 १, ३, १३१; ङवौश्रौ १, २:  
 ११×४; भाश्रौ; या १, २०१;  
 ६,२०१; ११,३१; -र्वण: शांश्रौ  
 ३, ११,९; १३; हिश्रौ ३,५,२०;  
 २८; ५,१,२; -र्वण ऽ-र्वण: काश्रौ  
 ५,११,३०; -र्वणा निस् ८,९:  
 १२; शौच ४, ७७; शुभ्रा ५, ७;  
 -र्वणाम् आश्रौ ९,२,२; आपश्रौ  
 ८,२२,४; कौसू; -र्वणि आश्रौ

a) अर्थ: व्यु. च!। b) = पर्वन्-। c) = देश-विशेष-। व्यु. ?। d) वैप १ द्र.।  
 e) = मेघ-। f) = वज्र-। g) लोकालोकपालाऽन्यतम-। h) पाभे. वैप १,१९६३ ० द्र.। i) अर्थचर्चिदिवं-  
 द्र.। j) पाभे. पृ ९८७ i द्र.। k) पाभे. वैप १,१९६४ ० द्र.। l) नदी-नामन्-। m) उप्त. उप. <√गम्।  
 n) उप. = पौष्ट्य-। o) पत्त. उप. भाप. (<अन्तर्√ह्)। p) वैप १,१९६४ III द्र.। q) = ऋषि-विशेष-।  
 व्यु. ?। r) पा इति पाठ: ? यनि. शोष:।



२,१,१२; ४,२; शांश्री; -र्वणि-  
 ऽ-र्वणि शांश्री १४, १०, १७;  
 वीश्री १९, १० : ६०†; वीश्रीप्र;  
 -र्वणी आश्री १, ७, १; आम्रिग्य  
 ३, ५, १ : १०; वीपि १, १ : ९;  
 शुप्रा १, १३८<sup>३</sup>; -र्वणे काठश्री  
 १७; आम्रिग्य २, ६, ७ :  
 ३७<sup>३</sup>; -र्वणोः वैश्री ६, ११ :  
 ११; लाश्री १०, १८, ४; -र्वन्  
 कौसू १, २५; ६१, ३९; -र्वभिः  
 आपश्री ८, २२, ८; वीश्री १८,  
 ३२ : १२; भाश्री; -र्वसु आश्री  
 २, १६, २६; आपश्री ८, ४,  
 ४; वीश्री; -र्वसुऽ-र्वसु चव्यू  
 २ : ३३; -र्वा अग्र १२, ५,  
 (५)†; -र्वाणि आश्री ९, ३, ४;  
 आपश्री; या ६, २०.  
 पार्वण<sup>१</sup>- णः आग्य १, १०, १;  
 शाग्य ५, ४, १; वीग्य; -णम् शंघ  
 २४०; -णे वीश्री २०, १ : १०;  
 २९, ८ : ६; ९; आग्य ४, ७, १;  
 काग्य ४२ : २३; शंघ २१०;  
 -णेन वीश्री २०, १ : १०; २६, १;  
 ७; आम्रिग्य; -णौ आपश्री २, २०,  
 ५; वीश्री १, १७ : ११; भाश्री.  
 पार्वण-वत् आम्रिग्य २, ७,  
 ९ : ४१; आपग्य १८, ६; २२, १;  
 भाग्य ३, २१ : ५.  
 पार्वण-होम- मयोः मीसू  
 ९, २, ५१; -मौ आम्रिग्य १, ७,  
 ३ : २४.  
 पर्व-कार<sup>१</sup>- रान् विध ८२, १८.  
 पर्व-तन्त्र-> 'न्त्र-क- -के काग्य

४२ : १५.  
 पर्वतन्त्र-देवता- -ताः काग्य  
 ४२ : १४.  
 पर्वतन्त्र-प्रधान-निर्णय- -यः  
 काग्य ४२ : ५.  
 पर्व-तिथि- -श्या वीश्री १३, १ : ३.  
 पर्व-दक्षिणा<sup>१</sup>- -णा जैग्य १, १४ :  
 १२; -णाः गीग्य ३, २, ४४.  
 पर्व-देवता- -ताभ्यः शांश्री १४,  
 ५, ६.  
 पर्व-भां, भ-अं)श-समन्वि(त>)  
 ता<sup>१</sup>- -ताम् वेज्यो २०.  
 पर्व-भा(भ-आ)दान-कला<sup>१</sup>-  
 -लाः वेज्यो २१.  
 पर्व-मा(त्र>)त्री- -त्रीम् कौसू  
 ८७, १५.  
 पर्व-मैथुन- °निन्- -नी शंघ ३७८.  
 पर्व-वत्- -वति या २, ६; -वान् या  
 १, २०.  
 पर्ववती- -ती या ९, २६.  
 पर्ववच्च-टप<sup>१</sup>- -पः या १०, ४२.  
 पर्व-वर्जम् वाध १२, २१.  
 पर्व-प(१<sup>१</sup>)छ(१<sup>१</sup>)-वत्->  
 °द-ओपधि- -धीः काग्य ४० :  
 १५.  
 पर्व-संस्था<sup>१</sup>- -स्थासु काश्री ५, २,  
 १३.  
 पर्व-समत- -ताः वेज्यो १४.  
 पर्व-स्थ- -स्थः अप ५३, ६, १.  
 पर्व-स्थान- -नेषु काश्री २२, ७, १.  
 पर्व(र्व-आ)दि- -वीन् द्राग्य ३, २,  
 १८.  
 पर्व(र्व-अ) नारोग्य-वर्जम् विध

५४, ८.  
 पर्व(र्व-अ)न्तर- -रेषु आश्री ९, ३,  
 ५; काश्री २२, ७, १७; २४,  
 ६, ४×४.  
 ?पर्वयेत् त्रि-पर्व- टि. द्र.  
 पर्वर- पाठना २, १२२.  
 पर्वि- पाठभो २, १, २३४.  
 १पशुं<sup>१</sup>, शू<sup>१</sup>- पाठ ५, २७; पाग ५, २,  
 ९७<sup>३</sup>; -†शंघः अग्र ११, ३; या  
 ४, ६४; -शुः वीश्री ७, १० : १†;  
 या ४, ३४; भाशि ४†; -शुम्  
 आपश्री १, ३, ४; †कौसू १, २४;  
 ८, ११; ६१, ३८; -श्वं आपश्री  
 ११, ५, २; भाश्री १२, ४, १९;  
 हिश्री ७, ४, ४४.  
 पार्व<sup>१</sup>- पाठ ५, २७; पाग २,  
 ४, ३१; ५, २, ९७; पावा ४, २,  
 ४२; पावाग ५, ४, ४४; -श्वः  
 काश्रीसं २५ : २४; -श्वम् आश्री  
 १२, ९, ५; जैग्य २, ३ : ८†; वप्र;  
 या ४, ३४; -श्वयोः शांश्री ४, १४,  
 २८; काश्री २५, ७, ३०; आपश्री;  
 -श्वस्य वीश्री ४, ६ : ५५; ९ :  
 ३; कप्र ३, १०, ५; -श्वान् कौसू  
 ५८, १; -श्वानि जैग्य २, ३ : १३;  
 अप ४२, १, ५; -श्वाम्याम् हिपि  
 २ : ९; अप ५८<sup>३</sup>, ४, १४; -श्वे  
 शांश्री ४, १४, २९; काश्री ६, ७,  
 ६; १६, ८, १२; आपश्री; -श्वेन  
 काश्री ६, ८, ११; आपश्री; -श्वेः  
 कौग्य ४, ४, १०; शाग्य ४, १८, ६;  
 आपग्य; -श्वं व्रप ४८, ६०††;  
 निघ ३, ३०††; शैशि १४२.

a) = शब्द- । b) पाठः ? णि इति शोधः संभाव्यत । c) विप. > नाप. (याग-, श्राद्ध- प्रभृ.) ।  
 ताद्वितः प्र. । d) नाप. । उस. । e) उप. = २दक्षिणा- । f) विप. (तिथि-) । पस. > पस. > वृस. ।  
 g) पस. > पस. > मलो. कस. । h) विप. । वस. । i) पाठः ? यनि. शोधः । j) पस. उप. = समाप्ति- ।  
 k) वैप. १ द्र. । l) भागडा. पाठः । m) तु. पाप्ति., परशु- इति पाका. । n) वप्रा. । o) < √ स्ष्टश् इति ।  
 p) = पार्वमाननी-(रज्जु-) । q) = द्वावापृथिवी- । r) पार्वे इत्यपि दे. ।

१ पार्श्व-क- पा ५, २, ७५.  
 २ पार्श्व-क > का- का-  
 विष २६, ७६.  
 पार्श्व-चारिन्- -रिणः अप  
 ५२, १४, २.  
 पार्श्व-तत्तः (:) काश्रौ १४,  
 ५०, १; काश्रौ; या ४, ३; पार्श्वतः  
 ५ पार्श्वतः नाश्रौ ५, २, ९, ५.  
 पार्श्वतीय- पागवा ४, २,  
 १३८; पावा ४, ३, ६०.  
 पार्श्व-देश- -शौ कौसू ४४,  
 २८.  
 पार्श्व-भेद- -इः अप २२,  
 ६, १.  
 पार्श्व-ना( न >) नी- नी  
 बौश्रौ ६, २७; ३१; १२, १; ५;  
 काश्रुः -नीम् काश्रु ३, १; आपशु  
 २, ९; ३, १; बौश्रु २: ४; हिश्रु  
 १, ३०; ३९; -न्याः काश्रु ७,  
 ५; -न्यौ आपशु ४, ७; ६, १५;  
 हिश्रु २, ६; ४१.  
 पार्श्व-मानी-संनि ( त > )  
 ता- -तान् काश्रु ३, १.  
 पार्श्व-न्य- पा ५, २, ९७.  
 पार्श्व-शय- पावा ३, २, १५.  
 पार्श्व-शाधिन्- -यी अप ५०,  
 ४, ६.  
 पार्श्व-संस्थित- -ताः काश्रु  
 ७, ७५.

पार्श्व-संहित- -ने लाश्रौ ८,  
 ६, १५६.  
 पार्श्व-सन्धि-सन्धि- -व्या-  
 स्यान् पाश्रु ३, ३, १०.  
 पार्श्व-संघान- -नम् बौश्रु ५:  
 १८.  
 पार्श्व-संहित- -ने काश्रौ २२,  
 ४, १९६.  
 पार्श्व-स्थ- -स्थन् इदे ७,  
 १४९; -स्थेन आश्रौ १, ३, २५.  
 पार्श्विक- > क-घृत-बौ-  
 र्यां (य-आ ) स-प्रतिरूपक-साह-  
 स- -सैः विष ५८, १११.  
 पशु-मय- -यन् या ४, ३.  
 पशु-ल- पा ५, २, ९७.  
 पशु(श्रु-आ)दि- पावा ४, १, १७५.  
 रपशु- (> पार्श्व- पा.) पाग ५, ३,  
 ११७.  
 रपशु- > पार्श्व- -व्यत्य क्रञ्  
 २, ८, ६.  
 पशु- १ पशु- द्र.  
 √पर्ष- √पर्ष- टि. द्र.  
 पर्ष- -पान् या ३, १०१.  
 पर्ष- -पाल् २, १३००; पाग ४, २,  
 ६००५; ३, ११८१; -पर्ष- वाघ  
 ३, २०; बौघ १, १, ८; -पर्ष-  
 पाश्रु ३, १३, ४; -पर्ष- पाश्रु  
 ३, १३, ४; शंघ २५३.  
 पार्ष- -इम् चञ् २: ३१;

वज्रा १, १, ३; -शान्ति-या १, १७;  
 -इ- अप २: ४४.  
 पार्ष- पा ४, ३, ११८.  
 पार्ष- पा ४, २, ६००.  
 पर्ष- -ल- -ल- -ल- -ल-  
 १, १०, ११.  
 ?पर्ष- अप्राय २, ९.  
 पर्ष- (> पार्ष- पा.) पाग ५,  
 १, १२८.  
 पर्ष- (> पार्ष- ) परिष- टि.  
 द्र.  
 √पल- पावा. भ्वा. पर. गतौ.  
 १ पल- १ पल- पा ३, १, १४०.  
 २ पल- -ल- ल- ३, २; -ल- ल-  
 अप ३३, ३, ४; ५; -ल- ल-  
 वेद्यो २४.  
 पल- (ल-ए) कञ- -नम् अप ३३,  
 २, ५.  
 ३ पल- > १ पल- > -ल- ल- ल-  
 -नम् पावा ५, ४, ७८.  
 पल- -इम् वाघ ४, २१; -दादाम्  
 क्रञ् ३, ४, ११.  
 पल- (> पाल- पा.) पाग ४,  
 २, ११०.  
 पल- -पाल् १, १०६; पाग ५, २,  
 १००; -ल- क्रञ् १५, ३.  
 पल- -पा ५, २, १००.  
 पल-सूप-शाक- -कम् पा ६, २,  
 १२८.

a) = नायाविन्- इति पाका. । b) = बडिक- । तद्रमवीयः कः प्र. । c) विप. । उस्. । d) = रज्जु-  
 विशेष- । उस्. उप. क्तरो < √ ना (माने) । e) तपा. 'संहिते <> संहिते इति पामे. । f) द्र. > क्त. ।  
 g) = दास्य- । तद्रमवीयप् उक् प्र. । h) द्र. । आप्त- = भैस- , प्रतिरूपक- = छद्म- । i) शं प्रतिरूपकताइतौ  
 इति जीसं. । टाकोच्चूतदौःव्यातप्रति- इति नारदस्मृतिः (३३, ४७) । j) = आयुषजीविसंघविशेष- । k) व्यप. ।  
 ल्यु. ? । l) चञ् प्र. उस्. (पा ४, १, १०५) । m) वैष १, १९६५० द्र. । n) परि-पद्- > वैष. चति. (तु.  
 क्रमा.) । o) < √ घृप् । p) ट. पागन. । q) = प्रत्य-विशेष- । r) परि-पद्- टि. द्र. । s) लाजमदिकः  
 कम् प्र. । t) वृत्. > क्त. > पत्. । पर्ष- = सन्ध- । u) = परिमाणविशेष- । ल्यु. ? । v) = नांस- । ल्यु. ? ।  
 w) = नांस-भोजिन्- । तदर्हतीत्यर्थे चञ् प्र. इति पासित. । x) वैष १ द्र. । y) कर्मः ल्यु. चङ् = देह-  
 विशेष- इति पागन., = प्रान-विशेष- इति ऋत्. ।

पल्लो(ल-शो)दन- नः अप १,  
३४,२.

पलाण्डु<sup>३</sup>- पाठ १,३७; -ण्डुम् वैध  
२,१५,५.

पलाण्डु-लञ्जुन-प्रत्य- -त्यम् अप  
३६,७,२.

पलाण्डुवा(ण्डु-आ)दि- -दीन् वैध  
३,५,८.

प(रा>)ला(ला/अ)य्, पलायते  
आमिगृ २,५,१०:३३; या ४,२;  
१०, ११; पलायन्त वाधूश्रौ ४,  
४५:९; ५३<sup>२</sup>:२; ५९<sup>२</sup>: २;  
६०:३; पलायेत काश्रौ २५,  
९,१; माश्रौ ३, ५,२; वाधूश्रौ;  
पलायेरन् आपगृ २३,७.

पलायिषत वाधूश्रौ ४, ६०:४;  
पलायिष्ठाः शाश्रौ १३, २, ४;  
आपश्रौ ९, १८, ४; वौश्रौ;  
हिश्रौ १५,८,६<sup>१०</sup>; पलायिष्महि  
वाधूश्रौ ४,४५:१३; १४; ५३<sup>२</sup>:  
५; ७.

पला(ला-अ)यन- ने वृदे २,१०९;  
आज्यो ४,७.

पला(ला-अ)यमान- ने शाश्रौ  
१३, २, ४.

पला(ला-अ)यित- ते शाश्रौ १३,  
२, ७; काश्रौ २३, ४, १५;  
आपश्रौ ९, १८, ४; हिश्रौ १५,  
८,६; ११.

१पलाल<sup>८</sup>- पाठ १,११८; पाग २,४,  
३१<sup>१०</sup>; फि ६७; -लः अप ७०<sup>३</sup>,  
१८,४<sup>८</sup>; -लानि वैश्रौ ११,१०:  
९; कौसू ८०,२७.

पलाली<sup>८</sup>- (> णलि-न- पा.)  
पागवा ५,२,१००.

पलाल-क- -कम् अप २,५,३.

पलाल-भार- -रः गौध २२, २५;  
-रम् शोध ४०१; सुध ३८.

पलालभार-क- -कम् विध ५०,  
३५.

२पलाल<sup>८</sup>-> ण(ल-अ)नुपलाल<sup>८</sup>-  
-लौ अथ ८,६१.

पलाव<sup>८</sup>- -वान् कौसू ६१,२५१.

१पलारा<sup>८</sup>- पाठभो २, ३, १४४<sup>६</sup>;  
पाग ४,२,७५; ९०:३, १४१; ६,  
३,१०८<sup>१०</sup>; -शः वैश्रौ १०,१ :

११; हिश्रौ ३,३, ३७; वौगृ २,  
५, ६३; भागृ १, १०:४; अप  
२३, ६, ५; २६, ५, ६; -शम्  
भाश्रौ ५,५, १४; माश्रौ १,५,२,  
१८; वाश्रौ; या १२, २९<sup>१०</sup>;

-शस्य मागृ १,१७,६; वागृ २,  
४; ५,४२; कौसू; -शान् कौगृ  
१,८,१९<sup>१०</sup>; -शानाम् भाश्रौ १,  
६,९; -शानि शाश्रौ ४, १८,५;  
१९, ७; आपश्रौ; -शे आपश्रौ  
१, ६, १०; वौश्रौ १, ३:४;

भाश्रौ; -शेन आगृ ४,८, १८<sup>१०</sup>;  
कौसू ४२, २०; विध ९४, १३;  
-शेषु पागृ २,१५, ४; भागृ २,  
१०:१५; हिगृ २,९,९.

पलारा<sup>८</sup>- पा ४, २, ७५; ३,  
१४१; -शः शाश्रौ १७,३, ४;  
आपश्रौ ७,२,१७; वौश्रौ; -शम्  
शाश्रौ ४, १६, ३; काश्रौ ६,१,  
८; २१,३, ३०; आपश्रौ; -शाः  
आपश्रौ २०,९,७; ८; भाश्रौ १,  
५,६; वाधूश्रौ; -शात् वाधूश्रौ ३,  
४१:३४; -शान् काठश्रौ ६;  
वौश्रौ १५, १४:४; २३:२; वाश्रौ;

-शानि आपश्रौ १५, ५, ११;  
वैश्रौ १३, ७:१६; हिश्रौ २४,  
२,५; -शे काश्रौ १५, २, २; ६,  
१०; आपश्रौ; -शेन काश्रौ १५,  
५, ३१; ६, १२; आपश्रौ; -शेषु  
पागृ ३, ८; ११; -शैः काश्रौ  
१९, ३, १२.

पलारा<sup>८</sup>- -शी शाश्रौ  
१७, ३, २; काश्रौ १, ३, ३५;  
काठश्रौ; -शीः काश्रौ १६, ४,  
४०; निसू १, ११:४; शागृ;  
-शीम् शाश्रौ २,८, २२; आपश्रौ  
६,८,५; ९,३; १६, १, ७; वौश्रौ;  
-श्यः आमिगृ ३, ८; १:४;  
१५; कागृ ४, १८; वौषि १,  
१४:४; १३; अप २३, ९, ४;  
-श्या वैश्रौ १, ५:१; वैगृ ५,  
२:१७; कौसू ४३, २०; ८२, २५.

पलारा-खादिरौ (र-शौ)  
दुस्वर- -राः विध २७, २१.

पलारा-त्सरु- -रुणि अप्राय  
३, ८.

पलारा-दण्ड- -ण्डाः वैगृ ५,  
१२:६.

पलारा-पर्ण- -र्णैः वैगृ ७,  
३:९; १२; ४:१५.

पलारा-पात्र- -त्रेषु वाश्रौ  
३, ४, ५, ७.

पलारा-वैकङ्कत-कर्मर्य-  
वैल्व- -ल्वान् काश्रौ २, ८, १.

पलारा-शङ्कु- -ङ्कुना  
आमिगृ ३, ४, ५; ३; -ङ्कुन् वौषि  
३, १०:१.

पलारा-शाखा- -खाभिः  
आमिगृ २, ७, २:१५.

a) नाप. (प्याज इति नमा.) । व्यु. ? । b) अप<sup>८</sup> इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ.) । c) वैष १  
द्र. । d) तु. पागम. । e) अर्थः ? । f) = महत्-पलाल- इति पागम. । g) < √पल् (अर्थः ?) ।  
h) सपा. वागृ १, १३, ६ ? सपलशान् इति पागे. । i) स्वार्थे विकाराथे च अण् प्र. ।

पविन्द L, °न्दा<sup>10</sup> J- (> पाविन्दायन-  
पा.) पाग ४, १, ११०.

१पवीर- पवि- द्र.

२पवीर- पाठभो २, ३, ४८.

पवीर-च- , श्वत्- पवि- द्र.

√पश्<sup>०</sup> (=√स्पश), पश्यते अप  
३५, २, ४; ६८, २, २७; पश्यति  
वौश्रौ २, ४ : २८; १४, १ :  
९; १८, ४४ : १५; वाघूश्रौ; मागृ  
१, २१, ६१<sup>०</sup>; या १, १६; १९;  
१४, २३; पा ४, ४, ४६; पश्यन्ति  
शांश्रौ १५, १७, ११<sup>०</sup>; आपश्रौ; या  
६, २६; पश्यसि वौश्रौ १८, ४४ :  
६; वाघूश्रौ ३; १९ : १६; ४,  
६४ : ६; कागृ; ङ्या १२, २२;  
२३; २४; २५; पश्ये सु ६, ३;  
पश्यामि ङआपश्रौ ६, १७,  
९; १४, १८, १; काश्रौसं;  
पश्यामः ह्रस्व ३, १६ : ६; ११;  
निस्; या १, १४<sup>२</sup>; ङपश्यत्  
शांश्रौ १५ ३, ८<sup>०</sup>; वृदे ८, ६६<sup>०</sup>;  
या ५, १; १४, २०; पश्यम्  
आपमं २, १३, ३; ङपश्याति<sup>१</sup>  
आपमं २, १, ५; आगृ १, १७,  
१३; पाठ २, १, १६<sup>१</sup>; कागृ ४०,  
११<sup>१६</sup>; जैगृ १, ११ : १७;  
पश्यन्तु आपमं १, २, ५<sup>१०</sup>; सु  
२९, १; ङपश्य शांश्रौ १५, १९,  
१; आपश्रौ १०, ३, २<sup>३</sup>; वौश्रौ;  
या ९, २४; १४, १८; ङपश्याहि  
जैगृ १, ८ : ३; -५××; ङपश्यत  
शांश्रौ ९, १७, २; १३, ७, ६;

आपश्रौः पश्याति जैगृ १, २१ :  
३३<sup>१</sup>; अपश्यत् शांश्रौ १०,  
१४, २; १५, २××; आपश्रौ;  
अपश्यताम् शांश्रौ १४, ३०,  
१; ७१, २; वौश्रौ १८, ३५ :  
२; ५० : ३०; अत्र ६,  
१०×; अपश्यन् शांश्रौ १०,  
१८, २; १४, १४, १××;  
वौश्रौ; ङपश्यम् आपश्रौ ४,  
६, ३<sup>३</sup>; १३, ७; आपश्रौ; या ४,  
२६; १०, ४६; १४, ३; ङप-  
श्याम<sup>१</sup> आमिगृ ३, ५, ८ : ३;  
वौपि १, ७ : ५; हिपि ४ : ८;  
पश्येत् शांश्रौ ५, २, ३; १५,  
१७, ११<sup>१</sup>; आपश्रौ; पश्येयुः  
जैश्रौका १३८; दाश्रौ २, ४,  
३; लाश्रौ; पश्येः वाघूश्रौ ४,  
६४ : ३; पश्येयम् वौश्रौ १८,  
४४ : १३; वाघूश्रौ ४, ६४ : ४;  
ङपश्येम आपश्रौ १४, १६, १;  
हिश्रौ १५, ५, १ आपमं.

पश्य- पा ३, १, १३७.  
पश्यत्- श्यतः आपघ १, ७, १३;  
हिघ १, २, ७०; -श्यते अप  
३०<sup>२</sup>, २, ५; -श्यन् काश्रौ ५, ४,  
१२; आपश्रौ १६, ३, १३; १६,  
४<sup>१</sup>; वैश्रौ; ङ्या १, १९<sup>१</sup>; ५, ४;  
१२, २३; १४, २०<sup>१</sup>; -श्यन्तः  
वौश्रौ १४, ७ : १३<sup>१</sup>; २६, ७,  
१७; वाघूश्रौ; या ३, २०<sup>१</sup>.  
ङपश्यन्ती- न्ती आपमं १,  
४, ९; आमिगृ १, ५, २; ५५; कागृ.

पश्यतो-हर<sup>१</sup>- पावा ६, ३, २०.  
पश्यत<sup>१</sup>- -०त् अप ३०, ६, ५<sup>१</sup>.  
पश्यति-> ०त्ति-कर्मन्<sup>१</sup>- -मां  
या ४, १९; -मांणः निघ ३, ११;  
या ३, १३.  
ङपश्यमान- न्तः शांश्रौ १८, २१,  
११; काश्रौ १३, २, २४;  
-नासः शांश्रौ १२, ११, १७.

√पश्<sup>३</sup> पाघा. चुरा. पर. वन्धते.  
१पाश<sup>१</sup>- पाग ४, २, ४९; -दा-  
आश्रौ ६, १३, ८<sup>१</sup>; ङशांश्रौ ८,  
१०, ४; १५, २२, १<sup>१</sup>; ङआपश्रौ  
८, ७, २६; ८, १८××; ङवौश्रौ;  
या ४, २४<sup>१</sup>; -शम् काश्रौ २, ७,  
२; ६, ३, २४××; आपश्रौ ७,  
१७, ५<sup>१</sup>; ङ<sup>१</sup>; ७<sup>१</sup>; १६, १५, ८;  
वौश्रौ १, २० : २८<sup>१</sup>; ४, ६ :  
३८<sup>१</sup>; ४०; १०, १६ : ७; भाश्रौ  
३, १२, ५<sup>१</sup>; ७, १३, ७<sup>१</sup>;  
माश्रौ १, ३; ५, १७<sup>१</sup>; ३, १,  
२९<sup>१</sup>; ६, १, ४, १३; वैश्रौ  
१०, १४ : १<sup>२</sup>; ङ<sup>१</sup>; १८, ८ :  
८<sup>१</sup>; २०, ११ : ३<sup>१</sup>; हिश्रौ ४, ४,  
३<sup>१</sup>; ङ<sup>१</sup>; ११, ६, ६; आपमं १, ४,  
११<sup>१</sup>; ५, १७<sup>१</sup>; आमिगृ १,  
३; २<sup>१</sup>; ५, ३; ४<sup>१</sup>; वौगृ १, ४,  
३, २३<sup>१</sup>; भागृ १, १४; १२<sup>१</sup>,  
मागृ १, ११, २०<sup>१</sup>; जैगृ १,  
२० : २९<sup>१</sup>; कौस् ३३, ६;  
६६, ३०<sup>१</sup>; अप्राय; -शयोः  
काश्रौ १६, ८, ४; आपश्रु १, १२<sup>१</sup>;  
हिश्रु १, २२<sup>१</sup>; -ङाः आश्रौ १.

a) पाका. पाठः । b) व्यप. । व्यु. ? । c) या ३, १६ परामृष्टः द्र. । d) सपा. पश्यति <>  
पश्याति इति पामे. । e) पामे. वैप १, १९६९ e-द्र. । f) तु. राजा. । गुसं. पश्चात् इति, लाघासं. पश्याति  
इति । g) पश्या इति पाठः ? यनि. शोधः । h) सपा. शौ १, ३३, ४ पश्यत इति पामे. । i) सपा. शौ १८,  
३, ३ अपश्यम् इति पामे. । j) = चौर- (तु. शक.) । k) वैप १ द्र. । l) विप. । वस. । m) या ४, २ पा  
७, ४, ८६ परामृष्टः द्र. । √पश् इति [पसे] BPG. । n) पामे. वैप १, १९७१ g-द्र. । o) पामे. वैप १, १९७१ f  
द्र. । p) पामे. वैप २, ३३. पाठम् मंत्रा १, १, १४ टि. द्र. । q) पामे. वैप १, १९७१ i-द्र. ।

३, २४; शांश्री १, ६, ३; काश्री;  
या ९, २६९; -शान् आश्री  
१, ११, ३<sup>०</sup>; काश्री ३, ८, २<sup>०</sup>;  
आपश्री; आपमं १, ५, १६<sup>०</sup>;  
आय १, ७, १७<sup>०</sup>; -शान् आपश्री  
१६, १६, १<sup>०</sup>; श्रीश्री ११, ४:  
२३<sup>०</sup>; २५; १५, २९: १८<sup>०</sup>××;  
माश्री १, ८, ३, ३६<sup>०</sup>; वाश्री;  
-शाम्याम् माश्री ५, २, १३, १<sup>०</sup>;  
-शाय श्रीमाश्री १, ७, ४, ४२; २,  
१, ४, ४१; -शे वीश्री ६, ८: ५;  
भाश्री ७, १३; ७; कौस्  
४७, ४९<sup>०</sup>; -शेन काश्री २६,  
५, ३; आपश्री २, ५, ४; ७,  
१३, ८<sup>०</sup>; वीश्री; -शेभ्यः वीश्री  
११, ४: २२; १५, २९: १८;  
माश्री ५, २, १३, १<sup>०</sup>; कौस् ४७,  
१६<sup>०</sup>; अप ३७, १, १०<sup>०</sup>; -शेषु  
वाश्री १, ६, ५, ७; -शैः वीश्री  
१, ११: १०; १५; २०; भाश्री;  
या ४, ३९; -शौ काश्री १६, ५,  
१७; ८, ५; ६; वीश्री.  
पाश-ह्रैदक- का: शंघ ४४०.  
पाश-त्तसः(ः)आश्री ६, १०, ६.  
पाश-धर- पाठवृ २, २२.  
पाश-पाणि- णि: अप ६७, २,  
४.  
पाश-प्रतिमोक- कः काश्रीसं  
३५: १३.

पाश-वत्- वन्तम् वाश्री २, १,  
२, ३४.  
पाश-विमोच (न >) नी- नी  
ऋअ २, ७, ८८.  
पाश-समूह- हः या ४, २.  
पाश-हस्त<sup>०</sup>द- पाग २, २, ३७<sup>०</sup>;  
-स्तेन अप १, २९, ४; -स्तैः  
अप ६८, २, ४५.  
पाशा(श-अ)ङ्कुश-संनिभ-  
भा: अप ६१, १, १०.  
✓पाशि पा ३, १, २५.  
पाशिन्- शिनः आपश्री १६,  
१८, ७; वैश्री १८, १६: ५;  
हिश्री.  
पाशो (श-ऊ)मि-नगरा (र-आ)  
कार- -रै: अप ६४, १, ८.  
पा(श्य >)श्या- पा ४, २, ४९;  
-श्या या ४, २<sup>०</sup>क.

पशग- -गः वीश्री ३, १०, ६<sup>०</sup>.

पशव्य- पशु- द्र.

पशु- पाठ १, २७; -शिवः आश्री  
१, ११, ७; २, २, १७××;  
शांश्री; आपश्री ४, १, १०<sup>०</sup>; ७,  
१७, १<sup>०</sup>; भाश्री ४, २, २<sup>०</sup>;  
हिश्री १, २, ५<sup>०</sup>; ४, ३, ५४<sup>०</sup>;  
कौस् ८२, १३<sup>०</sup>; या ७, ५९;  
१९; ८, २२<sup>०</sup>; ११, २९<sup>०</sup>;  
-शवः गोश्री ३, १०, १७<sup>०</sup>;  
-शवे शांश्री ४, २०, १; वीश्री

४, ६: ३२; ६, २४: १३; ७<sup>०</sup>  
१२: ३५<sup>०</sup>; ११, ४: १६;  
१४, ५: २१<sup>०</sup>××; अप ३६,  
९, २१; -शु या ४, १४<sup>०</sup>;  
पाग १, ४, ५७; ६१<sup>०</sup>; -शुः आश्री  
२, १७, १८; ९, २, ६××; शांश्री;  
निसू २, ५: १८<sup>०</sup>; २१<sup>०</sup>; या  
३, १६<sup>०</sup>; १२, ४१<sup>०</sup>; -शुना  
आश्री २, २०, ५; ५, ३, १××;  
शांश्री; काश्री ९, ७, ४<sup>०</sup>क; १०,  
१, १८<sup>०</sup>क; आपश्री १२, १७,  
२०<sup>०</sup>क; वैश्री १५, २०: १०<sup>०</sup>क;  
हिश्री ८, ५, १<sup>०</sup>क; -शुभिः आश्री  
१, ३, २८; ३, १४, १२××; शांश्री  
८, ८, ११<sup>०</sup>क; १७, १७, १<sup>०</sup>क;  
आपश्री ४, १०, १<sup>०</sup>क; -शुभ्यः  
आश्री २, ३, २०; आपश्री ५,  
१३, ४××; १०, २२, १२<sup>०</sup>;  
१४, २७, ७<sup>०</sup>; वीश्री १, १२:  
१४<sup>०</sup>; २, १७: २१<sup>०</sup>; वैश्री  
२१, १४: १५<sup>०</sup>; हिश्री ३,  
४, १६<sup>०</sup>; १५, ७, ८<sup>०</sup>; आपमं १,  
३, ११<sup>०</sup>; शांश्री १, १४, ६<sup>०</sup>; पाग  
१, ४, १६<sup>०</sup>; ८, १<sup>०</sup>; आम्रिय १,  
५, ३: १०<sup>०</sup>; ४: ४३<sup>०</sup>; वीश्री १,  
१, २८<sup>०</sup>; भाग १, १७: ३<sup>०</sup>;  
वाय १४, ३<sup>०</sup>; वैश्री ३, ४:  
८<sup>०</sup>; हिश्री १, २०, २<sup>०</sup>; २१, १<sup>०</sup>;  
-शुभ्याम् वीश्री १२, १६: १८;

a) पामे. वैप १, १९७१ f द्र. । b) पामे. वैप १, १९७१ g द्र. । c) विप. । वस. । d) पृ ११११

जाल हस्त- इत्यत्र टि. अपि 'विप. वस.' इति द्र. । e) तु. पागम. । f) विप. । द्रस. > वस. । g) = सर्प-

विशेष- । व्यु. ? । h) सपा. वीश्री १७, १८: ६ प्रशुकः इति पामे. । i) वैप १ निर्दिष्टानां समावेशः द्र. ।

j) पामे. वैप १, २१२५ h द्र. । k) पामे. वैप १, २००६ k द्र. । l) पामे. वैप १, १९७३ f द्र. । m) सम्प्यग्-

अर्थे क्रिवि. । वैप १, १९७२ d द्र. । n) हिंसायाम् इति पागम. । o) प्रशुसोमः इति पाठः ? यनि. च सोमः

इति च शोषः (तु. संस्कर्तुः टि.) । p) पामे. वैप २, ३४. पशुना माश्री ४, २, ५, ११ टि. द्र. । q) पामे. वैप १,

१६९७ b द्र. । r) पामे. वैप १, १९७४ b द्र. । s) पामे. वैप १, १९७९ a द्र. । t) पामे. वैप २, ३४. वीश्री

पशुभ्यः तैत्रा ३, ७, ७, ११ टि. द्र. । u) सपा. पशुभ्यः <> पशुनाम् इति पामे. । v) पामे. वैप १, १९७५ c

द्र. । w) सपा. आय १, ७, १९ प्रजाम्यः इति पामे. । x) पामे. वैप १, १९७४ f द्र. ।

१८: २२; -शुम् आश्रौ ३,  
२, ११; २, २, ४; १२, ९, १७;  
शाश्रौ; आपश्रौ ७, १४, ११<sup>क</sup>;  
माश्रौ  $\ddot{\text{क}}\text{र}$ , २, ६, १२<sup>प</sup>; ५, १,  
२३<sup>प</sup>; वैश्रौ १०, ११: १०<sup>क</sup>,  
हिश्रौ ४, ३, ३७<sup>क</sup>; भागृ  
२, ३१: ८<sup>क</sup>; या ४, १४;  
-शुम्ऽ-शुम् वौश्रौ २२, १२:  
५; माश्रौ ५, २, १२, २६; -शुषु  
काश्रौ २, ८, १४<sup>क</sup>; ६, १०,  
२९<sup>ख</sup>; आपश्रौ; या १३, ९<sup>३</sup>;  
पा ३, ३, ६९; -शु आश्रौ  
९, २, १०; शाश्रौ १४, ३,  
१८; १३, १; आपश्रौ; -शुन्  
आश्रौ १, २, १;  $\ddot{\text{क}}\text{र}$ , ३,  
१७; ५, २<sup>द</sup><sup>ख</sup>;  $\ddot{\text{क}}\text{शाश्रौ}$  २,  
१३, ४; १४, ४<sup>द</sup>; १५, २<sup>द</sup>;  
काश्रौ; आपश्रौ ५, १८, २<sup>क</sup><sup>द</sup><sup>ख</sup>;  
 $\ddot{\text{क}}\text{द}$ , २४, ३; ६, २५, १०;  
२६, ५;  $\ddot{\text{क}}\text{वौश्रौ}$  २, १८: १८<sup>द</sup>; ३,  
१४: १२<sup>द</sup>; माश्रौ ५, ११, ७<sup>द</sup><sup>क</sup>;  
 $\ddot{\text{क}}\text{माश्रौ}$  १, ४, २, १०; ६, ३, ७<sup>द</sup>;  
१४<sup>द</sup>; ८, ३, १८<sup>द</sup>; ६, १, २, २६<sup>०</sup>;  
 $\ddot{\text{क}}\text{वाश्रौ}$  १, १, ४, ९<sup>०</sup>; ४, ४, १<sup>०</sup>;  
५, ४, २७<sup>द</sup>; ३६<sup>द</sup>; ६, ४, २२<sup>अ</sup>;  
वैश्रौ १, १४: १६<sup>क</sup><sup>द</sup>;  $\ddot{\text{क}}\text{हिश्रौ}$  ६,  
७; २<sup>द</sup>; ७<sup>द</sup>; आमिष्ट १, ५, ३:  
१३<sup>क</sup>; भागृ २, १२, ६<sup>क</sup><sup>द</sup>; हिगृ  
१, २०, २<sup>क</sup><sup>द</sup>; आपध २, २८, ६<sup>द</sup>;  
या ७, १९<sup>क</sup>; -शुनाम् आश्रौ  
१०, ९, ६: शाश्रौ; आपश्रौ

२, ४, ८<sup>क</sup>;  $\ddot{\text{क}}\text{वौश्रौ}$  ३, २०:  
२<sup>क</sup>; १०, ३४: २<sup>क</sup>; ६<sup>क</sup>;  
५६: २<sup>म</sup>; माश्रौ १, ४, ३,  
१<sup>क</sup>; वाश्रौ १, १, ४, ९<sup>क</sup>; हिश्रौ  
६, ४, १<sup>क</sup>; हिष २, ६, ६<sup>क</sup>;  
-शो: आश्रौ ३, ४, ४; ६, ११,  
६<sup>ख</sup>; शाश्रौ; या ६, १६; -शौ  
आश्रौ १, ४, ४; १२, १७<sup>ख</sup>;  
शाश्रौ; आपश्रौ १३, ११, १<sup>क</sup><sup>प</sup>;  
वौश्रौ ८, ११: १२<sup>क</sup><sup>प</sup>; वैश्रौ १६,  
१३: २<sup>क</sup><sup>प</sup>; हिश्रौ ९, ३, ३७<sup>क</sup><sup>प</sup>;  
पा ३, २, २५; पावा ५, ४, २९<sup>द</sup>;  
-शौऽ-शौ वौश्रौ २०, २५: ४;  
- $\ddot{\text{क}}\text{श्व}$ : आश्रौ ४, १०, १; शाश्रौ  
५, १४, ८; - $\ddot{\text{क}}\text{श्वा}$  आश्रौ ८, १२,  
२४; ऋञ्ज २, १, ६५; ३, १७;  
वृदे ३, ११८.  
पाशुक्<sup>०</sup>-क: शाश्रौ १४, १०,  
५; -कम् शाश्रौ १४, १०, २;  
काश्रौ; आपश्रौ १३, १६, १२<sup>प</sup>;  
-का: आपश्रौ ८, २, १५; ३, १;  
-कात् आपश्रौ १४, १९, ४;  
हिश्रौ १५, ५, १८<sup>प</sup>; -कान्  
आपश्रौ १७, १५, ४; वैश्रौ १९,  
६: ८९; -कानि शाश्रौ १४,  
१०, २३; आपश्रौ; -के आपश्रौ  
११, १६, ५; -केन वैश्रौ १६,  
२०: ९<sup>प</sup>; -कै: वैश्रौ १४, १५:  
१२.

पाशुकी-की माश्रौ २, २,  
५, १; -कीम् वैश्रौ ८, ९:

३; ४.

पशव्यव्या-व्य: कागृ ४, ८, ३५;  
पागृ ३, ८, २; भागृ २, ३२:  
९; -व्यम् आश्रौ २१, २५,  
१२: वौश्रौ १७, १८: ११;  
वाधूश्रौ; -व्या: अप ७०<sup>३</sup>, ६,  
३; -व्याम् कागृ २५, २०<sup>क</sup>.

पशु-कमेन्-मे आश्रौ ५, १७, ४;  
शाश्रौ; -मेसु हिश्रौ ६, १, ५०;  
-माणि नो १, १.

पशु-कल्प-ल्प: कागृ १, ११, १;  
कागृ ५१, १; -ल्पेन कागृ २, ४,  
१३; -ल्पेणु वौश्रौ २३, ११:  
१५; २६.

पशु-कौत्य-यान-दास-शयना(न-आ)  
सना(न-आ)दि-दीनि वैगृ  
४, ४: १८.

पशु-काम-म: आश्रौ ९, ८, ८;  
१२<sup>ख</sup>; शाश्रौ; -म ऽ-म: माश्रौ  
१, ३; ५, ३; -मम् आपश्रौ  
१४, १३, १०; १४, ७<sup>ख</sup>;  
माश्रौ; -मेत्य आश्रौ १०, १, ७;  
३, १५; १९; शाश्रौ; -सा: आपश्रौ  
११, २, १५; ३, ५; ६; शाश्रौ;  
-नानाम् आश्रौ १३, ४, ६;  
काश्रौ २४, २, १३<sup>ख</sup>; वौश्रौ;  
-माय ह्रस्व १, ७: ५.

पशुकाम-यज्ञ-ज्ञ: निस्व २,  
३: १७; ७, ८: १; १२; ८,  
२: १६; ९, १: ४२; -ज्ञे लार्थी  
९, ४, ३४; निस्व ७, ८: ६; ११:

- a) पामे. वैप १, १९७५ g द्र. । b) पामे. वैप २, ३३<sup>लं</sup> पशुना नाश-४, २, ५, ११ टि. द्र. । c) पामे.  
वैप १, १९७५ k द्र. । d) पामे. वैप १, १६९५ m द्र. । e) सपा. पशुन् विन्देयम् <> पशुन् विदेयम् <>  
पशुमान् भूयान्म् <> पशुमती भूयासम् इति पामे. । f) पामे. वैप १ रयिम् ऋ १०, ८५, ४१ टि. द्र. ।  
g) पामे. वैप १, २०२७ ० द्र. । h) सपा. पशुन् <> पशुनाम् इति पामे. । i) पामे. पृ १५४९ u द्र. । j) पामे.  
वैप १, १९७६ j द्र. । k) पामे. वैप १, १९७५ e द्र. । l) पामे. वैप १, १९७५ f द्र. । m) पामे. वैप १,  
१९७४ g द्र. । n) तु. पाका. । o) विप. (कर्मेत्, संभार-प्रच.) । तत्रमतीयत् उक् प्र. (पा ४, ३, ७२) । p) पामे.  
पृ ९०३ d द्र. । q) पाशुकात् खिष्टकृतः इत्यत्र त्वाने सपा. वैश्रौ २१, ५: ९ पशुखिष्टकृत् इति पामे. ।

१५; -ज्ञी काश्री २२, १०, १८;  
निसू ७.८ : १८.

पशुकामयज्ञ-त्व- -त्वात्

निसू ७.८ : १७.

पशुकाम-श्री- -श्रिया हिश्री १३,  
८, ४४.

पशुकामा(म-अ)न्नकाम- -मयोः  
माश्री ५, २, ७, ९.

पशुकाम्य<sup>१</sup>- -म्यम् गो १, २८.

पशु-काल- -ले आपश्री १७, २३,  
४; १८, २, १२××; वाश्री.

पशु-कुणप- -पेन वाधूश्री ३, ४४ :  
१३; १५.

पशु-क्लृप्ति- -प्तिः आपश्री २१,  
१४, ६; २२, १२; हिश्री १६,  
२, १७; ८, १; -त्तेः वीश्री १६,  
११ : १; १९ : १.

पशु-गण- -णानाम् आपश्री २४, ३,  
३६; -णे शाश्री ६, ११, १६;  
मीसू ५, २, १०; ९, ४, १; ११,  
४, ३१; -णेषु काश्री १९, ४, ६.

पशु-गमन- -ने विध ५, ४४.

पशुगवा अप्राय ५, ५.

पशु-हन्(हन्)श्री- -श्री आपमं १,  
१०, ३; ६; पाट.

पशु-चित्त<sup>२</sup>- -चित्त वीशु ६ : १२.

पशु-चोदना- -नायाम् मीसू ६, ८,  
३२.

पशु-जात- -तानाम् वीश्री १५,  
३१ : १८; ३४ : ५; -तानि माट  
२, १०, २.

पशु-जानु<sup>३</sup>- -नुः विध १, ५<sup>४</sup>.

पशु-तन्त्र- -न्त्रम् आश्री ३, ६, २८;  
काश्री ५, ११, १९; -न्त्रे शाश्री  
५, १९, ५; ९, २७, ३××;

-न्त्रण वैश्री १६, १३ : ५; हिश्री  
७, ८, ५६; ९, ३, ४२.

पशु-त्व- -त्वम् मीसू ९, १, ४५.

पशु-दावन्<sup>४</sup>- -वा कौसू ७२, १८<sup>५</sup>.

पशु-देवता- -ता आश्री ३, ४, ९;  
१२; ६, ११, ७; काश्री १६, १,  
२६; -ताभ्यः आश्री ३, १, १२;  
-ताम् आश्री ६, ११, ५<sup>६</sup>; शाश्री  
५, १५, ६; ६, ९, १३; -तायै  
काश्री ६, ७, १६.

पशुदेवता-वनस्पति- -तिभ्याम्  
काश्री ६, ९, १३; १०, ७, १४.

पशु-देव( ता > )त, ता<sup>७</sup>- -ताः  
या ८, २२; -ताम् आश्री २, ४,  
१२.

पशु-देवता<sup>८</sup>- -ताः शुश्र ३, १३१.

पशु-देवत्व<sup>९</sup>- -त्वम् शुश्र १, ५३८.

पशु-द्वन्द्व-नपुंसक- -कम् पावा २,  
४, १२.

पशु-धर्म<sup>१०</sup>- -र्मः वीशु ६ : १<sup>१</sup>.

पशु-धर्मन्<sup>११</sup>- -र्म आपश्री १४, ७,  
१५; -र्मणा शाश्री ९, २७, ६.

पशु-नानात्व- -त्वम् आश्री ३, ७,  
४.

पशु-नामन्- -म या २, ५; ५, ५.

पशुनामा(म-आ)दि- -दिभ्यः  
पावा ५, २, २९.

पशु-निगम- -माः शाश्री ९, २३,  
१३.

पशु-नियोजन- -नम् काश्री २२,  
७, ५.

पशु-प<sup>१२</sup>- -पस्य आपध २, २८, ३;  
हिध २, ६, ३.

पशु-पक्षि-मृगा(ग-२आ)द्य- -द्यान्  
विध १, १७.

पशु-पति<sup>१३</sup>- -पाग ४, १, ८४; -तये  
शाश्री ४, १८, ५; ९, २६, २;

काश्री; -पतिः आश्री ४, ११, ५;  
वीश्री ४, ६; २३; माश्री; -पतिम्  
आश्रित २, ६, ३ : १५; माट  
२, ३, ५; अप; अथ २,  
३४९; -पति आपश्री ६, ११,  
३; वीश्री; -पतिः आपश्री ७,  
१५, ५; हिश्री ४, ३, ६; आपमं.

पाशुपत- -पा ४, १, ८४;  
-तम् अप २०, ६, ४; ४०, ५, ३.

पाशुपत-व्रता(त-आ)  
देश- -शः अ ४०, १, १.

पाशुपत्य<sup>१४</sup>- -त्यम् अथ २,  
३४.

पशुपति-सायुज्य- -ज्यम् अप  
४०, ६, १४<sup>१५</sup>.

पशु-पर्यधिकरण- -णात् काश्री ८,  
९, ३.

पशु-पा<sup>१६</sup>- -पाः आश्री ४, ११, ६;  
आपश्री ६, १८, ३; ७, २३, ६;  
वीश्री २०; २९ : १६; हिश्री ६,  
६, १७; -पाम् आपश्री १, २, १;  
भाश्री १, २, ११; वाश्री १, २, १,  
४; हिश्री १, २, १२.

पशु-पाद-प्रकृति<sup>१७</sup>- -तिः या २, ७.

पशु-पाल- > पाशुपाल्य- -ल्यम्  
वाध २, १९.

पाशुपाल्य-कुसीद-वाणिज्य-  
-ज्यानि वैध १, १, ८.

पशुपाल-क्षेत्रकर्षक-कुलसङ्गत-  
कारयितृ-परिचारक- -काः गौध  
१७, ६.

पशु-पालक-><sup>१८</sup>लिका<sup>१</sup>- -पा, पाग  
४, १, ४.

a) तस्येदमीयः यत् प्र. उत्सं. (पा ४, ३, १२१)। b) वैप १ द्र.। c) विप.। वस.। d) प्राशु-  
जानुः इति जीसं.। e) उप. <√दा [दानं]। f) तु. आन.। g) द्वस.। h) र्मा इति संस्कृतः दि.।  
i) उप. <√पा [रक्षणे]। j) सास्यदेवतीयः पयः प्र. (पा ४, १, ८५)। k) पस. > वस.। l) तु. पागमं.।

पशु-पालन- नम् विध २,७; सुध

८.

पशु-पीडित- ते गौध १२,१६.

पशु-पुरोडाश<sup>१</sup>- शः काश्रौ ८,७,  
२५; १६,१, २५; ३९; आपश्रौ;  
-शम् आश्रौ ३,४,१२; ६,११,६;  
१४,१५; शाश्रौ; -शस्य आपश्रौ  
७,२२,१; २१,२०,१३; वौश्रौ;  
-शाः आश्रौ ३, ९, २; काश्रौ  
६३; वौश्रौ; -शान् काश्रौ १९,  
४, १; आपश्रौ २०, २३, २;  
वौश्रौ; -शानाम् माश्रौ ५, २,  
४,२३; ४३; वाश्रौ ३,१,२,३,१;  
२,७,८३; ८,११; हिश्रौ १४,५,  
१४; -शाय शाश्रौ ५, १९,१;  
काश्रौ ६३; माश्रौ ५,२,८,१४;  
-शे आश्रौ ९,२,६; १९; माश्रौ  
१०, १४, ६; -शेन वाश्रौ ५,  
१३, ८; ६, ११,७; शाश्रौ;  
-शेभ्यः वौश्रौ २४, १० : १२;  
१३; -शैः माश्रौ ५,२,४, ३३;  
वाश्रौ ३, १, २, ३०××; -शौ  
वौश्रौ १५, ११ : १४; ३७ :  
१०××.

पशुपुरोडाश-तन्त्र- न्त्रम् काश्रौ  
१५,४,१८.

पशुपुरोडाश-प्रथम<sup>२</sup>- न्मान्  
काश्रौ २,१४,३.

पशुपुरोडाश-प्रवृत्ति- ति नाश्रौ  
२, २, ५, १९; -त्तिनि हिश्रौ  
१३,८,२५.

पशुपुरोडाश-वत् काश्रौ २,९,८.

पशुपुरोडाश-ध्रवण- णम् काश्रौ  
१,१,१५; पाण् ३,१२,५.

पशुपुरोडाश-त्विष्टकृत्- कृतः  
वौश्रौ १५, ३७ : १०; ३८ : १;

-कृति हिश्रौ ४,३,३०.

पशुपुरोडाश-हवि-स्त्विष्टकृत्-

-कृतान् नाश्रौ ५,२,११,४०.

पशुपुरोडाशां (श-अ)दि-दि  
आपश्रौ १४,७,१८.

१पशुपुरोडाशा(श-अ)वै<sup>३</sup>-वै  
काश्रौ १५,१०,१७.

२पशुपुरोडाशा(श-अ)वै<sup>४</sup>-वैः  
काश्रौ १५,१०,२०.

पशुपुरोडाशी(य>)या->य-  
प्रोक्षणी- णीः वौश्रौ २४,३६:  
६.

पशुपुरोडाशे(शइ)डा- ढायाम्  
वाधूश्रौ ४,४ : ५.

पशु-पोषण- णाय अश्र ३,२८.

पशु-प्रमोचन->न्नी(य>)या<sup>५</sup>-  
न्याः वाश्रौ १,६,४,२६.

पशु-प्रवा(द>)वा<sup>६</sup>- द्वा निच् ७,  
८ : ३२.

पशु-प्रायश्चित्त- न्तानि वौश्रौ २८,  
६ : १.

पशु-प्रोक्षणी- णीः वौश्रौ २४.  
३६ : ५.

पशु-बन्ध<sup>७</sup>- न्धः शाश्रौ ९,२३,१;  
१४, ११, ३; काश्रौ; -न्धम्  
शाश्रौ १०,१७, २; काश्रौ २२  
७,२३; वौश्रौ; -न्धस्य आपश्रौ  
७, ७, ३; वौश्रौ ३, २६ : १४;  
३० : २४; वाधूश्रौ; -न्धाः  
माश्रौ ५,२,१०,४; आमिष्ट १,  
२, १ : १४; -न्धाः वाधूश्रौ  
३,४१ : १८; -न्धात् माश्रौ १,  
८, ६, २५; माण् १, १८, ७;  
-न्धानाम् वैश्रौ १०,२२ : २८;  
-न्धाय माश्रौ ५,२,४, ६; ११,  
५; वाधूश्रौ ४, १०३<sup>२</sup> : ८;

-न्धे आपश्रौ १९,११,२;१४,  
४;६; काश्रौ २; वौश्रौ; -न्धेन  
काश्रौ १२, २, ८<sup>१</sup>; आपश्रौ;  
-न्धेषु वैश्रौ २६ : १; -न्धैः  
वाश्रौ ३, ४, ३, २१; ताश्रौ ९,  
१२, १०; शंघ १३८; -न्धौ  
काश्रौ १५,९,१२.

पाशुवन्धिक, का<sup>१</sup>- कम्  
वौश्रौ १०, ९ : १४; १७,३३ :  
१०××; माश्रौ २, २, ५, २७;  
-काः वौश्रौ २४, ३५ : ५;  
-कानाम् माण् २, ४, १०;  
-कानि वौश्रौ ५, ४ : २१; ९ :  
१३; १७, ३७ : ९; -कायाः  
आश्रौ ३, १, ८; वौश्रु ३ : २४.

पाशुवन्धिकी-की वौश्रौ  
४,१ : ३२; ५,५ : ९; १०, ९ :  
४; २१,६ : १४; -क्यः शाश्रौ  
४,२०,४.

पशुबन्ध-याजिन- ङी आपश्रौ  
७,१,१; वौश्रौ २४,११ : १८<sup>१</sup>;  
वैव १,५,३

पशुबन्ध-यूप- -पम् वाधूश्रौ ३,  
४१ : ३४; ३७

पशुबन्ध-वत् आपश्रौ ८, १, ६;  
३,१२××; वैश्रौ.

पशुबन्ध-वर्जम् आपश्रौ २२,२५,  
१७. हिश्रौ २३,४,११.

पशुबन्ध-न्यथान- ने काश्रौ १२,  
२,१०.

पशु-ब्रह्मवर्चसा (स-अ)वाद्य-कान-  
नाः काश्रौ १,३,२४.

पशु-भाग-करण<sup>८</sup>- णम् अश्र २,  
३४.

पशु-भूमि-स्त्री- स्त्रीणाम् गौध  
१२, ३६

a) वैप २,३६. द. । b) विप. । वस. । c) पस. । d) = ब्राह्मति-विशेष- । e) वैप १ द. ।  
f) विप. (यूप-, वेदि- प्रवृ.) । g) विप. (सृज्-) । पस.>वस. ।



पशु-भेद- दे शांश्रौ ६, १, १६.  
 पशु-मत्- -मत् वीर्य ४, ३, ४;  
 या ४, २४; -मत्तः वीश्रौ ५,  
 १६: १५; द्राश्रौ-१३, २, १३;  
 लाश्रौ ५, ३, ५; -मत्ते शांश्रौ  
 २, १०, १; -मत्सु शांश्रौ १४,  
 १०, १; -मन्तः शांश्रौ १५,  
 २७, ११; -मन्तम् आपश्रौ  
 १, १, ९; ६, २१, १; काय  
 २५, ३८; -मन्ति वीश्रौ १६,  
 १२: २; ५; वाश्रौ १, ७, ५, १०;  
 -मान् आश्रौ ४, ११, ५; १;  
 आपश्रौ १, १, ९××; ४, १३,  
 २<sup>५</sup>; वीश्रौ ३, १९: २<sup>५</sup>; १४,  
 ६: ११××; २७, १४: ७<sup>५</sup>;  
 ९<sup>५</sup>; मश्रौ ३, २, १; ४, १५,  
 ६; १९, ४<sup>५</sup>; ७, १, ८; ८, ३,  
 १<sup>५</sup>; माश्रौ १, ४, १, २७<sup>५</sup>;  
 २, ६<sup>५</sup>; वाधूश्रौ: वाश्रौ १, १, ३,  
 ६<sup>५</sup>; हिश्रौ ६, ४, १<sup>५</sup>; ४२<sup>५</sup>;  
 -मान्ति<sup>५</sup> ऋप्रा ९, ५२<sup>५</sup>.  
 पशु-मती- म्ती आपश्रौ ३,  
 १०, ९; ४, १३, ३<sup>५</sup>; माश्रौ;  
 -ती: आपश्रौ ४, ८, २<sup>५</sup>; माश्रौ  
 ४, ११, ४<sup>५</sup>; हिश्रौ ६, २, १७<sup>५</sup>.  
 पशु-मान- -नेन वीश्रौ १९, १: ६.  
 पशु-योनि- -नयः विध ४४, ९.  
 पशु-रशना- -ना आपश्रौ ७, ११, २;  
 -नाया: वीश्रौ २०, २७: १३;  
 २८: १७.  
 पशु-रोमन्- -माणि वाध ११, ३४;  
 विध ५१, ६०.  
 पशु-वचन- -नम् काश्रौ २५, ९,

१२.  
 पशु-वत् आश्रौ ६, १४, १४; काश्रौ.  
 पशु-वपा(पा-अ)न्त- -न्ते काश्रौ  
 २२, ९, ४.  
 पशु-वर्जम् वाश्रौ १, ७, ५, ३३.  
 पशु-वाचिन्- -चि माश्रौ ५, २, ९,  
 ३.  
 पशु-विधि- -धि: मीसू ३, ६, १८.  
 पशुविरावाभ्रदण्डाभस्वल्पान् अप  
 ६५, २, १०.  
 पशु-वेला- -लायाम् वीश्रौ १४,  
 ३: १५; २६, ७: ३.  
 पशु-वेश्या-गमन- -ने विध ५३,  
 ७.  
 पशु-वेश्या (श्या-अ)भिगमन- -ने  
 शंघ ४०७.  
 पशु-व्रत<sup>५</sup>- -तः आपश्रौ २२, १३, १,  
 पशु-शकुनि-द्वन्द्व- -द्वे पावा २,  
 ४, १२.  
 पशु-शक्ति<sup>५</sup>- -क्तौ माश्रौ ८, २४,  
 १४.  
 पशु-शिरस्- -रसाम् आपश्रौ १४,  
 २३, ५; १६, २७, ५; वैश्रौ २१,  
 १०: ७; हिश्रौ १५, ६, ४; -रांसि  
 आपश्रौ १६, १३, १०; माश्रौ  
 ६, १, ७, ३२; वैश्रौ १८, ११:  
 २७; हिश्रौ ११, ५, २१; -रोमि:  
 हिश्रौ ११, ७, ६३.  
 पशु-शीर्ष- -र्षाणाम् वीश्रौ २२, २:  
 २१; ७: ५; -र्षाणि आपश्रौ  
 १६, २७, ७; वीश्रौ १०, ९: १३;  
 १६××; वैश्रौ; -र्षैः आपश्रौ १६,  
 २७, २२.

पशुशीर्ष-विद्या- -द्याम् वाधूश्रौ  
 ४; १०८: १४; १८××.  
 पशु-श्रपण<sup>५</sup>- > णा(ण-अ)र्थ-  
 -र्थम् आपश्रौ १९, ८, ४; हिश्रौ  
 २३, १, ३१.  
 पशु-श्रपण<sup>५</sup>- -णः-अप्राय ६, १;  
 -णम् वीश्रौ ६, २९: १८; १४,  
 ३: ९; १०; १२; वाश्रौ ३, २,  
 ७, ९; हिश्रौ १०, ३, ४१; -णस्य  
 हिश्रौ १५, ८, २७; -णात्  
 काठश्रौ ६९; -णे माश्रौ ३, ५,  
 १८; ६, २, ६, २; वैश्रौ २०, ३७:  
 १०; ३८: ७; हिश्रौ १५, ८, १८;  
 २५.  
 पशुश्रपणी<sup>५</sup>- -णीम्, माश्रौ ७,  
 ६, ६; -ण्याम् माश्रौ ७, ६, ७.  
 पशु-श्राद्ध<sup>५</sup>- -द्धस्य काय ६८, १;  
 -द्देव विध ७३, ६.  
 पशु-पद<sup>५</sup>- -पदे हिश्रौ १, १६; ९<sup>५</sup>;  
 पशु-पटि- -पटि: वीश्रौ १५, २३:  
 ११.  
 पशु-(स्था >)ष्टा<sup>५</sup>- -ष्टा: अप्राय ३,  
 ११.  
 पशु-संयोजन- -नानि वीश्रौ २०,  
 २६: ४२.  
 पशु-संयोजन<sup>५</sup>- -न्तः वीश्रौ २६,  
 २९: १०.  
 पशु-संस्ताव- -वम् निसू ७, ८:  
 १०; ८, २: ५४; -वौ निसू ७,  
 ८: २१.  
 पशु-संज्ञपन- -नात् माश्रौ १, ८;  
 ३, ३३.  
 पशु-सनि- -नि शांश्रौ ४, १३, १,

a) सकृत् पाभे. पृ १५५० e द्र. । अन्यत्र सपा. पुष्टिमान् पशुमान् <> पुष्टिमती पशुमती <>  
 प्रतिष्ठाम् इति पाभे. । b) सकृत् पाभे. वैप १, १९७८ i द्र. । c) स्वस्तिमान् पशुमान् इत्यस्य स्थाने  
 सपा. माश्रौ १, ४, २, ६ सवितृप्रसूतः इति पाभे. । d) पाभे. वैप १, १९७९ a द्र. । e) पाभे. पृ १५५०  
 e द्र. । f) वैप १, १९७९ b, c द्र. । g) वैप १ द्र. । h) पस. पूवः = पशु-यागः । i) = [पशुश्रपणार्थः]  
 पात्री- । j) मलो. कस. । k) उप. <√व(<स)द्र- । l) विप. । वस. ।

आपश्रौ ६, ११, ५; वौश्रौ ३,  
७ : २; भाश्रौ ४, २२, ४;  
वावृश्रौ २, १६ : ३; हिश्रौ ३,  
७, १२; -निः शुभ्रा ३, ८१.  
पशु-समाप्ताय- -ये या १२, १३.  
पशु-संमर्शन- -नम् हिश्रौ ४, ५,  
२९.  
पशु-सवनीय- -येषु मीसू १२, २,  
३०.  
पशु-सत्यो(त्य-उ)पघात- -तैः अप  
५२, १५, १.  
पशु-साध(न>)नी<sup>२</sup>- -नी ऋप्रा  
५, २७.  
पशु-सोम- -मयोः वाश्रौ १, १, १,  
३०; मीसू २, २, १७.  
पशु-स्थान- -ने कप्र २, ७, २५.  
पशु-स्वस्त्ययन-काम- -मः गोरु  
४, ५, १७; द्रागृ ४, १, १०.  
पशु-स्वामिन्- -मिने विध ५, ५१.  
पशु-स्विष्टकृत्- -कृतः काश्रौ १९,  
६, २१; वौश्रौ १५, ३७ : १२;  
३८ : ३; वैश्रौ २१, ५ : ९<sup>b</sup>;  
-कृति हिश्रौ ४, ३, ३०; ५, २८.  
पशु-हिरण्य- -ण्ययोः गौध १०,  
२४; -ण्येभ्यः विध ३, २४.  
पशु-हौत्र<sup>c</sup>- -त्रम् आमिष्ट १, २, १ :  
१६; वौगृ ३, १, २४.  
पशु-कृ पा १, ४, ६१.  
पशु(शु-उक्त>)क्ता<sup>d</sup>- -क्ताः निसू  
४, ३ : १०; जैगृ १, १७ : ६.  
पशु(शु-उ)स्ता- -स्ता काश्रौ २५,  
९, १५; भाश्रौ ३, ५, १४; -स्ताम्  
आपश्रौ ९, १८, १२; वाश्रौ १,  
६, २, ११; वैश्रौ २०, ३७ : १;  
हिश्रौ १५, ८, १२.

पशु(शु-उ)पज<sup>e</sup>-> -ज-लोम-  
क्षेत्रशद-वाह्य<sup>f</sup>- -ह्येषु गौध १२,  
३३.  
पशु(शु-उ)पवाद- -दात् काश्रौ  
२२, ८, २४.  
पशु(शु-उ)पाकरण- -णम् कौसू  
५९, २३; -णात् आपश्रौ १९,  
१, १८; हिश्रौ १३, ८, १७; -णे  
वैश्रौ १७, १० : ४.  
पशुपाकरण-काल- -ले वैश्रौ ११,  
२ : १३.  
पशुपाकरण-प्रभृति- -तीनि  
हिश्रौ १३, ८, १९.  
पशु(शु-अ)ङ्ग- -ङ्गम् पागृ ३, ११,  
९; मागृ १, ९, २२; वागृ ११,  
२२; मीसू ४, ४, २२; २७;  
-ङ्गानि वाश्रौ ३, २, ६, ४१; कप्र  
३, १०, ४.  
पशुङ्ग-प्राण-दान<sup>g</sup>- -नम् शुभ्र  
१, ४०७.  
पशु(शु-अ)तिरेक- -कः मीसू ११,  
४, २७; -के मीसू १०, ६, ४२.  
पशु(शु-अ)नङ्गत्व- -त्वात् मीसू ११,  
३, ५२.  
पशु(शु-अ)नृत<sup>h</sup>- -न्ते वौध १, १०,  
३५.  
पशु(शु-अ)न्त<sup>i</sup>- -न्तम् निसू १०,  
११ : २२; -न्तानि वौश्रौ २१,  
६ : २४.  
पशु(शु-अ)भाव- -ने हिश्रौ ५, ६,  
८; कप्र ३, १०, ७; ८.  
पशु(शु-अ)भिधान<sup>j</sup>- -नात् काश्रौ  
२०, ७, १९; मीसू ९, १, ४५;  
-ने भाश्रौ ३, ४, १४.  
पशु(शु-अ)भिधायिन्- -यिनः वाश्रौ

३, २, ६, ४१.  
पशु(शु-अ)भिधारण- -णम् काठश्रौ  
५३.  
पशु(शु-अ)यन<sup>k</sup>- -नेन आपश्रौ १२,  
७, १०.  
पशु(शु-अ)र्थ- -र्थम् आपश्रौ १२, ४,  
१३; वैगृ २, १७ : ५; -र्थानि  
आश्रौ १२, ४, १५; शाश्रौ ५,  
१९, २.  
पशु(शु-अ)लाम- -मे आश्रौ ६,  
१४, १९; वौपि २, ७ : १७.  
पशु(शु-अ)विभव- -वे हिपि २१ :-  
२.  
पशु(शु-अ)सि- -सी काश्रौ ६,  
८, ७.  
पशु(शु-अ)ज्य- -ज्यम् वौश्रौ २५,  
४ : ४.  
पशु(शु-अ)ग्रहण- -णम् काश्रौ  
८, ६, ३२; ९, १, २.  
पशु(शु-अ)ज्य-शामित्रदेश-यूप-  
चात्वाला(ल-आ)ह्वनीय-  
-यान् काश्रौ ६, ५, २.  
पशु(शु-अ)ति (व्य>)प्या-  
-ध्ययोः काश्रौ २, ७, १४.  
पशु(शु-अ)तिव्या-दर्शन- -नात् काश्रौ  
२, ७, १२.  
पशु(शु-अ)दि- -दिभ्यः वौपि २,  
८, ५; -दौ काश्रौ २०, ३, १०.  
पशु(शु-अ)नन्तर्य- -र्यात् मीसू  
८, २, १७.  
पशु(शु-अ)नयन- -नात् हिश्रौ ९,  
१, २२.  
पशु(शु-अ)पद्- -पदि काश्रौ २३,  
४, १३.  
पशु(शु-अ)लम्भ- -म्भः हिश्रौ

a) वै १ द्र. । b) पामे. पृ १५५० q द्र. । c) = प्रश्न-द्वय- । d) विप. (पशुनाम्नोक्ता-।  
शक्वरी- । e) = घृतादि- । उर. उप. <उप/जन् । f) द्रस. । क्षेत्रशद- = क्षेत्रजन्य-श्रजादि- । g) विप..  
(यजुस्- । सप्त.> उर. । h) मलो. कस. । i) विप. । वस. । j) उप. भावे कर्तारि वा कृत् । k) = अयन-विशेष- ।

१७, २, १५; -स्मम्-वैश्री १८,  
४ : १२.  
पश्चा(शु-आ)लम्भना( न-आ)दि-  
काश्री २०, ४, १.  
पश्चा(शु-आ)सादन- नात् काश्री  
२०, ७, २८.  
पश्चा(शु-आ)हुति- -ती: आपश्री  
१२, ३, १२; माश्री २, ३, ७, १४;  
-त्या या १०, २१.  
पश्चि(शु-इ)ज्या- -ज्या काश्री ६,  
१, १.  
पश्चि(शु-इ)डा- -डाम् काश्री ८, ८,  
२; माश्री २, २, ५, २; -डाया:  
आश्री ४, २, ११; माश्री २, २,  
५, १९.  
पश्चिडा(डा-अ)न्त- -न्तम् आश्री  
५, १७, ४.  
पश्चि(शु-इ)ष्टि- -ष्टि: आपश्री ११,  
१६, ३; हिश्री ७, ८, ३; -ष्ट्याम्  
माश्री ७, २, १६.  
पश्चे(शु-ए)कत्व- -त्वात् मीसू ५, २,  
१०.  
पश्चे(शु-ए)कादशिनी<sup>१</sup>- -नी  
आपश्री १४, ७, १९; हिश्री ९,  
८, ४४; -न्या हिश्री १६, ८,  
१५; -न्याम् काश्री ८, ८, २६;  
वैताश्री २२, २०.  
पशु-कर्मन्- प्रसृ. पशु- द्र.  
पशुकृ<sup>२</sup>- -कः वौश्री १७, १८ : ६०.  
पशु-गण- प्रसृ. पशु- द्र.  
पश्च, चा<sup>३</sup> पा ५, ३, ३३.  
पश्च-भाव- -वः पावा ५, ३, ३२.

पश्चा-तात्<sup>४</sup> आश्री ३, ८, १; शांश्रु  
६, ६, १.  
पश्चा(अ-अ)नुपूर्वी<sup>५</sup>- पाग ६, ३,  
१०९.  
पश्चा-पापीयस्- -यान् माश्री १,  
५, १, ७.  
पश्चा(अ-अ)भिसुख<sup>६</sup>- पाग ६, ३,  
१०९.  
पश्चा(अ-अ)र्ध<sup>७</sup>- पाग ६, ३, १०९०;  
-र्धम् माश्री २, ३, १, १९;  
आमिश्र २, ७, ९ : २५; भाग ३,  
१९:११; जैश्रु १, २० : १३; कौसू  
६४, २१; -र्धस्य वाश्री ३, २,  
५, ५७; -र्धात् शांश्री ४, २१,  
१०; आपश्री २, १८, ९; वौश्री;  
-र्धे शांश्री ४, २१, १०; काश्री  
१६, ८, ९; आपश्री २, ३, ११×४;  
माश्री; -र्धेन शांश्री ६, १३, ९;  
माश्री २, ५, ५, १७; वाश्री.  
पश्चार्ध-सेवि-पुरीष- -षम्  
निसू ४, २ : ९; २६.  
पश्चार्ध, र्ध्या<sup>८</sup>- -र्ध्यः माश्री  
१२, ४, ११; -र्ध्यम् वाश्री १, ३, ३,  
१४; -र्ध्यात् माश्री १२, ४, १४;  
हिश्री ७, ४, ४०; -र्ध्यायाम् माश्री  
८, १९, ११; हिश्री ५, ४, ७५.  
पश्चात्<sup>९</sup> आश्री १, ७, ३; १०, ४×४;  
शांश्री; काश्री १७, ६, ४१<sup>६</sup>;  
आपश्री १०, २२, ८<sup>११</sup>; हिश्री  
१२, १, ६<sup>१</sup>; द्राश्री १०, ३, ६<sup>११</sup>;  
लाश्री ३, ११, ३<sup>११</sup>; आपमं  
१, ४, १०<sup>११</sup>; वौश्रु २, १, ११<sup>११</sup>;

भाग १, १४ : १०<sup>११</sup>; भाग २,  
१५, ११<sup>१</sup>; हिश्रु १, १९, ७<sup>११</sup>; जैश्रु  
१, २० : २७<sup>११</sup>; या १२, ५, १६;  
पा ५, ३, ३२; पश्चात्पश्चात्  
हिश्री १, ६, ५; २, ४, ३.  
पश्चात्य(, ल्य [पा.]) - पा ४,  
२, ९८; -त्यः वैश्री १४, ४ : १;  
८; -त्यात् वैश्री १४, ४ : २;  
-त्ये वैश्री ७, १० : ५.  
पश्चाच्च-मस<sup>१२</sup>- -सः वाश्री २, २,  
४, २.  
पश्चाच्च-च्छिद्र<sup>१३</sup>- -द्वेषु द्राश्री ११,  
१, ३; लाश्री ४, १, २.  
पश्चात्-कर्ण<sup>१४</sup>- -र्णम् काश्री २५, ७,  
३७.  
पश्चात्-तर- -रान् आश्री ८, १३, ३५.  
पश्चात्-तिर्यन्त्- -र्यञ्चौ वौश्री १७,  
३० : २<sup>१३</sup>.  
पश्चात्-पाद-द्विगुण<sup>१५</sup>- -णम् काश्री  
७, ३, १८.  
पश्चात्-प्रजन(न>)ना<sup>१६</sup>- -नाम्  
माश्री १, ५, ३, १; ७, १, ४०.  
पश्चात्-प्रेङ्ग<sup>१७</sup>- -ङ्गम् शांश्री १७,  
१३, १२.  
पश्चात्-प्रेङ्ग-फलक<sup>१८</sup>- -कम् शांश्री  
१७, १६, ७.  
पश्चात्-सद्<sup>१९</sup>- -सदः वौश्री १२,  
४ : ६; भाग २, ६ : ७.  
पश्चात्-सुच<sup>२०</sup>- -सुचाम् वाश्री १,  
३, ३, ३०.  
पश्चाद्-अक्ष<sup>२१</sup>- -क्षम् काश्री ९, १२,  
७; आपश्री १२, २, १०×४; वौश्री.

- a) वैप २, ३३. द्र. । b) =सर्प-विशेष-। व्यु. ? । c) पाभे. पृ १५४९ h द्र. । d) वैप १  
द्र. । e) वैतु. पागम. पूष. < पश्चात् । f) विप. । भवार्ये यत् प्र. । g) पाभे. वैप २, १९८०  
a द्र. । h) घृतात् इति-पाभे. [तु. C.] । i) सपा. आपश्री १७, १, ८ उत्तरस्याम् इति-पाभे. । j) पाभे-  
वैप २, ३३. प्रतिष्ठा ऐशा ५, १, २ टि. द्र. । k) पाभे. वैप १, ७९८ h द्र. । l) पाभे. वैप १, १९८० n द्र. ।  
m) विप. । वस. । n) तु. अग्निस्वामी; वैतु. धन्वी द्वे पदे इति । o) अस. । p) अर्थतः सङ्ख्येविपि Thibaut  
(JASB [४४, २६५]). पाठाभावः ? । q) विप. । तस. > वस. । r) अस. > वस. ।

पश्चाद्-अपवर्ग- नीम् काश्रौ २, ७, २२.

पश्चाद्-नासेचन-व(त्)ी-  
नीम् आपश्रौ १७, १७, ८.

पश्चाद्-उदक- -कम् आमिष्ट ३, ५, ५: १; वौषि १, ४: १०; ५: १.

पश्चाद्-उदीचीनकुम्भा- -न्वाम् वाश्रौ १, २, ४, ६३.

पश्चाद्-(हो)घोम- -मेषु वौग २, ११, ४८.

पश्चाद्-वर्ष->धीय- -यः आमिष्ट ३, २, २: १.

पश्चाद्-वात- -तः आमिष्ट २, ५, १०: ६; ११: ९; -तम् आपश्रौ १९, २५, १८; वौश्रौ १३, ३८: २; हिश्रौ २२, ६, ३.

पश्चिम, मा- -मा पावा ४, ३, २३; -स्त्याम् वैग १, १०: ६; १३; १४: ५; ४, ५: १०; ६, १: ११; -मा काश्रौ १७, ११, ४; १२, ३; कप्र २, ४, १-५;

-माम् आमिष्ट ३, ११, ४: १०; द्राष्ट ७, १, २५; कौसु; -मायाम् द्राष्ट ३, ५, २६; अप ६०, १, ३; -मे आश्रौ १२, ६, २; शाश्रौ ४, १८, ८; १९, ४; काश्रौ; -मेन<sup>५</sup> काश्रौ १४, ४, १६; कैश्रौका १५६; द्राश्रौ २, १, ८; ९××; लाश्रौ.

पश्चिम-तत्त्व (: ) वैश्रौ ८, ७: १०; वैग १, ९: १२; १०: ९××.

पश्चिम-दक्षिणो(ण-उ)त्तर- -रेषु

वैश्रौ १, ३: ९.

पश्चिम-द्वार- -राणि अप १, २९, ३.

पश्चिम-पूर्वा(र्वि-आ)व (त>) ता- -न्ताम् वैश्रौ १, २: १.

पश्चिम-वेदि- -दिम् वैग १, ९: १३.

पश्चिमा(म-आ)दि- -दि वैग १, १५: ४; वैव ३, १०, ४<sup>१</sup>.

पश्चिमा-मुख- -खः अप २२, ७, ५.

पश्चिमा(म-अर्क>)र्का- -कान् वैग १, ३: २२.

पश्चिमो(म-उ)त्तर- -तत्त्व (: ) जैग २, ९: ११.

पश्य-, पश्यत्- प्रभृ. √पश्द्र.

पश्वङ्ग- प्रभृ. पशु- द्र.

√पप् पावा. चुरा. उभ. गतौ.

पपिक<sup>१</sup>- (>पाधिक- पा.) पाग ४, १, ११२<sup>म</sup>.

पष्ट<sup>२</sup>->पष्ट-वाह<sup>३</sup>- -वाह् आपश्रौ १७, १, ८<sup>१</sup>; -तवात्<sup>०१५</sup> वौश्रौ १०, ३८: १८; हिश्रौ १२, १, ६; -वाहः वाश्रौ ३, ४, ३, २०<sup>१</sup>.

पष्टौही<sup>४</sup>- -ही आपश्रौ ५, ११, ४; १८, १०, १५; २२, २५, ४; वौश्रौ १८, ३: ४; वाश्रौ; -ही आपश्रौ १२, ८, ११; १९, १३, ११; वौश्रौ ७, ४: २४; १२, १८: १५; वैश्रौ १५, ११: १, हिश्रौ १०, ४, १४; २३, २, ४४; -हीभ्याम् शाश्रौ

१५, १४; १३; -हीम् आपश्रौ १५, १३, १; १८<sup>१</sup>; १९, २××; -ह्यः आश्रौ ९, ४, १४.

पष्टौही-कंसन्पुपुरा(र-आ)दि- -दिभिः काश्रौसं ४: १७; -दीनि काश्रौसं ५: १.

पष्टौही-व (र>)रा-राम् काश्रौसं ४: १३.

पष्टौह्या(ही-आ)दि- -दि काश्रौसं ६: ६.

पाष्टौह<sup>५</sup>- -हम् लाश्रौ ६, १२, १४.

√पस् पावा. चुरा. पर. वन्वने. णिपसस्<sup>६</sup>- -सः शाश्रौ १२, २४, ६; -तसा शाश्रौ १२, २४, २.

णिपस्त्य, स्त्या<sup>७</sup>- -स्त्यम् अप ४८, ८९; निष ३, ४; -स्त्यासु वौश्रौ १२, ९: ९; १४: २१.

पस्त्या-चत्<sup>८</sup>- -वान् ऋप्रा ९, ११<sup>१</sup>.

√पा पावा. भ्वा. पर. पाने, पिवति माश्रौ ५, २, २, ९; हिश्रौ; या ४, १८; १२, २९; पिवतः आपश्रौ १७, २६, १६; हिश्रौ १७, १, १३; पिवन्ति शाश्रौ ५, ८, ४<sup>१</sup>; वौश्रौ २२, २०: २१; भाश्रौ; णिया १, ११; ५, ११<sup>३</sup>; १०, १३; पिवसि आश्रु १, १३, ३<sup>१</sup>; णिपिवात् आश्रौ ५, १८, २; शाश्रौ ८, ३, ४; आपश्रौ १४, ३०, ३; वौश्रौ २९, ५: ७; हिश्रौ १५, ७, २०; णिपिवत् आश्रौ ८, ६, ८; ९, ९, १४; १०, ९, ५; शाश्रौ; नाश्रौ<sup>९</sup> २,

a) विप. । वस. । b) सप्र. वौश्रौ २५, ५: २ पुरस्तादुदकम् इति पाठे. । c) पाठः ? सप्र. आपश्रौ १, २१, ३ प्रभृ. उदीचीनकुम्भाम् इति । d) = कर्म-विशेष- । वस. । e) वैप १, ८८७ ० द्र. । f) विप., नाप. (दिशु-) । g) सर्वनाम-संज्ञा- उसं. (पात्राग १, १, २७) । h) क्वचित् एतदन्तं द्र. । i) दक्षिणादि इति BI. । j) = नायव्य-कोश- । k) √पशु इति [पक्षे] BFG. । l) व्यन. । व्यु. ? । m) पधिक- इति [पक्षे] भाण्डा. पाति. । n) वैप १ द्र. । o) पाठे. वैप १, १९८२ d द्र. । p) वैप १, १९८२ g द्र. । q) = नाम-विशेष- । r) पा १, ३, ८९: २, ४, ७७; ६, ४, ६६; ७, ३, ३७; ७८; ४, ४ पात्रा १, १, ५६; २, ४, ७७; ७, ३, ७८ परानृष्टः द्र. । s) पाठे. वैप १, १४९५ e द्र. ।

४, १, ३६; ३७; या ८, २<sup>३</sup>क;  
 ङिपिवताम् काश्रौ १९, ७, ८<sup>३</sup>;  
 काश्रौ १४१; वौश्रौ १६, ५:  
 ४; ७; माश्रौ २, ४, २, ११<sup>७</sup>;  
 ङिपिवन्तु-आश्रौ ३, ९, ३<sup>३</sup>;  
 ङिपिव, > वा आश्रौ ५, ५, ४;  
 १९ x x; शाश्रौ; काश्रौ २५, १२,  
 ४<sup>१०</sup>; या ४, ८; ७, ६; ८, २; ३;  
 १०, २; ११, ४४; ङिपिवतम्  
 आश्रौ ४, ७, ४<sup>४</sup>; ५, ५, १९<sup>३</sup>;  
 ६, ५, २४; -शाश्रौ; आपश्रौ  
 २१, ७, १६<sup>२a7b</sup>; १७<sup>२a7b</sup>;  
 वाश्रौ ३, २, २; १<sup>२a7b</sup>; हिश्रौ  
 १६, ३; ३५<sup>२a7b</sup>; ३६<sup>२a7b</sup>;  
 अप्राय ६, ६<sup>१०</sup>; या ४, १७;  
 १९<sup>३</sup>; १२, ३१; ङिपिवत्, > ता  
 आपश्रौ ७, २५, १०; वौश्रौ ४,  
 ९: २४<sup>३</sup>; ७, ५: १७; २५, १७:  
 ११; भाश्रौ; ङिअपिवत् आश्रौ  
 ३, ९, ५; आपश्रौ १९, ३, ४;  
 हिश्रौ १३, ८, २८; वृदे ३, ९०<sup>६</sup>;  
 साअ १, १३१; या ५, ११;  
 ङिअपिवन् आपश्रौ २१, २०,  
 ३; हिश्रौ १६, ६, ४१<sup>१०</sup>;  
 अपिव: आश्रौ ९, ५, १६<sup>३</sup>;  
 पिवेत् काश्रौ ४, १४, ११;  
 आपश्रौ; पिवेताम् वैश्रौ ११,  
 ५: १३; या ९, ४२; ४३;  
 पिवेयु: शंघ ३९०; विघ ५४,  
 ६; पिवेयम् वृदे ८, ३०.  
 ङिपाय > या ऋप्रा ७, ५३; शुप्रा  
 ३, १२९; तैप्रा ३, १०; पातु  
 कौसू ९१, २०<sup>३</sup>क<sup>३</sup>; ङिपाहि आश्रौ  
 ५, १४, २; शाश्रौ १४, ३, ६; २१,  
 २; वौश्रौ; या १०, २<sup>३</sup>क; शुप्रा

२, ६२; ङिपातम् आश्रौ ४, ७, ४;  
 शाश्रौ २, ४, ३<sup>६</sup>; ५; १०, १८; ८,  
 १५, १२<sup>७</sup>; आपश्रौ १५, १०,  
 ११<sup>७</sup>; वौश्रौ ९, १०: १७<sup>७</sup>;  
 भाश्रौ ११, १०, १०<sup>७</sup>, वैश्रौ १३,  
 १२: १७<sup>७</sup>; द्राश्रौ १४, ३, ५<sup>७</sup>;  
 लाश्रौ ५, ७, ४<sup>७</sup>; शुप्रा २, ६२;  
 या ४, १९.  
 पपौ वाधूश्रौ २, १३: २; वृदे ६,  
 १०२; पपिरे या १०, १३<sup>३</sup>क<sup>३</sup>;  
 ङिपपु: काश्रौ १३, ३, २६<sup>३</sup>;  
 आपश्रौ २१, २०, ३; वौश्रौ;  
 पास्यन्ति सु २८, ४; पास्यसि  
 वाश्रौ ३, ४, ४, ५<sup>६</sup>क<sup>३</sup>; ङिअपात्  
 आश्रौ ६, ४, १०; शाश्रौ;  
 ङिपात्<sup>३</sup> द्राश्रौ ६, ४, १७;  
 लाश्रौ २, १२, १७; ङिअपाताम्<sup>७</sup>  
 शाश्रौ ८, १५, १३; काश्रौ २६,  
 ६, ७; द्राश्रौ १४, ३, ६; लाश्रौ  
 ५, ७, ५; शुअ ४, ९६; ङिअपा:  
 आश्रौ ६, २, १२; ३, १६; ११,  
 ९; शाश्रौ ९, ६, १८; वैताश्रौ  
 २६, १३; ङिपा: आश्रौ ९, ६, २;  
 शाश्रौ ११, २, १३; ङिअपातम्  
 आपश्रौ १५, १०, १२; वौश्रौ  
 ९, १०: २०; भाश्रौ; ङिअपास  
 आश्रौ ५, ६, २६; काश्रौ १०,  
 ९, ८; आपश्रौ.  
 ङिअपायि आश्रौ ६, ४, १०; ८,  
 ५, १२; शाश्रौ.  
 पाययति आपश्रौ ७, १३, ११;  
 वौश्रौ ४, ५: २०; भाश्रौ पाययन्ति  
 आपश्रौ १६, १८, ३; २०, २,  
 ११<sup>३</sup>क<sup>३</sup>; वौश्रौ १८, ५०: २८;  
 हिश्रौ ११, ६, २५; १४, १, २३<sup>३</sup>क<sup>३</sup>;

ङिपायय > या वौश्रौ १६, ५:  
 १३; ऋप्रा ८, ३३; पाययेत्  
 आश्रौ ३, ११, ३; आपश्रौ १९,  
 १२, १२; हिश्रौ २३, २, ४५;  
 शांग.  
 ङिपाययिष्यति आश्रौ ५, ५, २७;  
 शाश्रौ ७, ४, १२; आपश्रौ.  
 पिपासति हिश्रौ १०, २, ५८<sup>३</sup>क<sup>३</sup>;  
 पिपासेते वैश्रौ १५, ३१: २;  
 पिपासन्ति सु ११, २; पिपासेत्  
 हिश्रौ ८, ७, ४३.  
 ङिपपिवस्- -वास: या १२, ४२<sup>३</sup>क<sup>३</sup>;  
 तैप्रा १६, १३; -वात् या ११, ४.  
 ङिपातवे आपश्रौ १६, २६, ३; वैश्रौ  
 १८, १८: ८; हिश्रौ; या ११, ३.  
 ङिपातवै आपश्रौ १२, २४, १४;  
 वैश्रौ १५, ३१: ११.  
 ङिपातव्य, व्या- -व्यस्य मीसू १०,  
 ४, ४९; -व्या विघ २२, ८२.  
 ङिपात- -ता आश्रौ ६, ४, १०;  
 शाश्रौ ९, ८, ३; वाधूश्रौ २,  
 १३: ४; या ५, २<sup>६</sup>क<sup>३</sup>; -तारम्  
 आपश्रौ १९, ३, ३; वौश्रौ १७,  
 ३१: ७; २५: ६; वैश्रौ ११,  
 ५: २; हिश्रौ १३, ८, २८.  
 ङिपान- -नम् शाश्रौ १४, २, ११;  
 १५, १, ४<sup>३</sup>क<sup>३</sup>; ५; काश्रौ; पा ८,  
 ४, ९; -नात् या ५, १; ६,  
 ७<sup>३</sup>; मीसू ३, २, ३४; -नानि  
 वौश्रौ २, ९: १६; -नाय माश्रौ  
 ५, २, २, ६; गोश्रु ३, १०, २१;  
 या ५, १८; १२, ४; -ने अप  
 ४८, २९; वौघ २, १, १८; गौघ  
 २३, २; -नेन आमिगृ २, ६, ७:  
 ३२; विघ ४६, २३; -नै: अप

a) पामे. वैप १, १९८३ p द्र. । b) पामे. वैप १, १९८३ o द्र. । c) पाठः? वैप १, १९८३ j द्र. । d) पिवत् इति पाठः? यनि. शोधः । e) अपिपन् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ). । f) सपा. पातु <> पात् इति पामे. । g) पामे. वैप १, १९८५ f द्र. । h) पामे. वैप १, १९८४ j द्र. ।

४४,३,१०; या ५,३.  
 पान-क<sup>०</sup>-पाग २,४,३१; -केभ्यः  
 शंघ २१९.  
 पान-कर्मन्-र्म अप ७०<sup>३</sup>, १०,  
 ७.  
 पान-भोजनो( न-उ )पनिवेश<sup>०</sup>-  
 स्थान<sup>०</sup>-शङ्काप्रतिविधान-  
 कुशल-ऋः शंघ २५३.  
 पान-न्यापद्<sup>०</sup>-पत् मौसू ३,  
 ४,३२.  
 पान-हस्त<sup>०</sup>-स्तेन अप १, ३०,  
 ४.  
 पानीय<sup>०</sup>-यम् वैचू ४,४ : २६;  
 १२ : ९; ५,६ : २६; शंघ २५४,  
 ३४७; ४२६; या १, १६; ७,  
 १३; २५; -ये अप ७०<sup>३</sup>, ७;  
 ११; विध ९१,१;  
 पानीया(य-अ)र्थ-र्थम् वैचू  
 ५,७ : १.  
 पान्त<sup>०</sup>-न्तम् आश्रौ ८, ८, ६;  
 शांश्रौ ९, ४, ५; १०, ६, १९;  
 ११, १२, १३; १२, २६, १५;  
 या ७, २५६.  
 पान्त-पश्यन्ति-शब्द-ऋद्वी  
 ऋप्रा ४,४८.  
 पायन<sup>०</sup>-नानि कौसू ३१, ५;  
 ३२,७.  
 पायना(न-अ)र्थ-र्थम् निस् ४,  
 ३ : १०.  
 पाययमा(न >)ना-ना या २,  
 २७; -नाः गोरू ३,२, ६.  
 पाययित्तवै काश्रौ ४, १३, १११.  
 पाययित्वा वैश्रौ १०, १० : १३;

आश्रू १, ११, २, ४.  
 पिपात<sup>०</sup>-नः अत्र ९, ४१.  
 पिपासत्-स्ते या ७, १३.  
 पिपासा-पाग ५, २, ३६; ६४;  
 -सा वौश्रौ २, ५ : २१; अप  
 २३, १४, ६.  
 पिपास-क<sup>०</sup>-पा ५, २, ६४.  
 पिपासित-पा ५, २, ३६.  
 पिपासु-सुः कप २, २, ९.  
 पिपीषत्<sup>०</sup>-पते शांश्रौ ७, ७, १;  
 १०, ६, १४xx; आपश्रौ.  
 पिबि-पा ३, १, १३७.  
 पिबि- > व-वत्<sup>०</sup>-वान् आश्रौ  
 ८, ५, ३.  
 पिबि-पिबन् आश्रौ ५, १९, ३;  
 आपश्रौ; आपमं २, २, ११;  
 -वन्तः वौश्रौ ११, ११ : ३;  
 -वन्तम् शंघ २५४; विध ७१,  
 ६२.  
 पिबन्ती-पिन्तीः आपश्रौ १,  
 २, ८; भाश्रौ; -न्तीम् अप ३९,  
 १, ७.  
 पिबिष्यै<sup>०</sup> आश्रौ ६, ५, २४१.  
 पिपीत, ता-तः आश्रौ ५, ६, २६;  
 ६, १२, २; माश्रौ २, ४, १, ४५;  
 वाधूश्रौ ३, ५३:३; वैताश्रौ १९,  
 १८; -तस्य आपश्रौ १४, १८,  
 ८; वौश्रौ ५, ४ : १८xx; -ताः  
 काश्रौ ७, ४, ३०<sup>m</sup>; आपश्रौ १०,  
 १७, ११; वौश्रौ; या १४, ६.  
 पीत-घृत-, प्त-तैल-, प्त-  
 दधि<sup>०</sup>-, प्त-मद्य- पाग २, २,  
 ३७.

पीत-वत् लाश्रौ ८, ९, १३.  
 पीत-वत्-वती निस् ३, १२ :  
 ४०; -वन्तः या १२, ४२;  
 -वन्ति निस् २, ११ : १३.  
 पीतवती-त्याम् निस् ३,  
 १२ : ४०.  
 पीत-विपीत-पावाग २, १, ६९.  
 पीत-विष<sup>०</sup>-पाग २, ३, ३७.  
 पीत-शेष-पम् गोरू ३, १०,  
 २२.  
 पीता(त-अ) पीत<sup>०</sup>-पितस्य  
 काश्रौ २५, १२, १; माश्रौ ३, ६,  
 १३; -तौ काश्रौसं ३२ : २४;  
 माश्रौ ३, ६, १३; अप्राय ६, ६.  
 पीता(त-अ)वशिष्ट-ष्टम् शंघ  
 २२६.  
 पीता(त-अ)वशेषित-तम् शंघ  
 ४२६.  
 पीति-पा ३, ३, ९५; -पितये  
 आश्रौ ६, ५, २४; आपश्रौ ५, ४,  
 १; वौश्रौ; या १२, ४६; -पितिम्  
 आश्रौ ६, ४, १०; शांश्रौ ९, १८,  
 ५; द्राश्रौ ४, ३, ९; लाश्रौ २, ३,  
 ८; वैताश्रौ २६, १०.  
 पिपीत्वा आश्रौ २, १०, ४<sup>xx</sup>;  
 शांश्रौ; कौगू १, १७, ६; विध  
 ८४, ३<sup>१०</sup>.  
 पीत्वा-स्तिरक-पाग २, १, ७३;  
 पीत्वी पाग ७, १, ४९.  
 पीयमान-नः वाधूश्रौ ४, ५२ : ८;  
 -नाः वाधूश्रौ ४, ५२ : ७.  
 पेय, या-यम् द्राग ४, १, ६; -या  
 काध २७५ : २; -याः शांश्रौ

a) नाप. । स्वार्थे प्र. । b) =नूतन-राज्य- । c) =सेना-निवेश- । d) पत्न. उप. =वमन- ।  
 e) मलो. क्त. । f) तस्मै द्वितीयः छ > इयः प्र. (पा ५, १, ५) । g) वैप १ द. । h) पिजन्तात्  
 कर्मणि प्र. । i) तु. पाका. । पिशाच- इति भाण्डा. प्र. । j) कनि प्र. हस्तत्वम् । k) =धातु-निर्देश- ।  
 l) पामे. वैप १, १९८७ m द. । m) पामे. वैप १, १९८८ a द. । n) तु. पागम. ।  
 o) पीत्वा इति जीसं. ।

१५, १, ४; बौधो १८, ५१ : १७;  
-याम् गोय ४, ५, २४; -यैः  
शांश्री १५, १, ३; बौधो १८,  
५१ : २; ३; ४.

✓पा<sup>०</sup> पाधा. अदा. पर. रक्षणे, पाति  
अप ४८, १४<sup>फ</sup>; ७०, १, १०;  
वाध ३०, ६; वैध; या ४, १८;  
१२, २९; पासि आश्री ४, ११,  
६<sup>फ</sup>; पाथः बौध ३, ११, ३<sup>फ</sup>;  
फपात आश्री १, ४, ९; ४, १२,  
२; ६, ९, ३<sup>०</sup>; शांश्री ४, ६, ९<sup>०</sup>;  
काश्री; आपथो ७, ५, १०; २<sup>०</sup>;  
माश्री ६, २, ४, १०; हिश्री ६, २,  
४<sup>१</sup>; १२, ४, ४<sup>१</sup>; कौश्र १, ५,  
२९<sup>१</sup>; या ११, ४६; ऋप्रा ४,  
५९<sup>१</sup>; शुप्रा २, ३०<sup>०</sup>; पातुऽपातु  
हिश्री ८, ५, ३५<sup>फ</sup>; फपाताम्  
आश्री १, ३, २३; ९, ५; ६,  
९, ३; शांश्री; फपान्तु आश्री १,  
२, १; शांश्री १, ६, ४; आपथो;  
माश्री १, ७, ३, २९<sup>०</sup>; ६, २,  
४, १<sup>०</sup>; वाश्री २, २, ३, १<sup>०</sup>;  
२<sup>१</sup>; वैश्री; फपाहि आश्री १,  
१३, ५; ६<sup>०</sup>; २, ३, ३<sup>१</sup>; ५,  
२<sup>१</sup> × ×; ५, ६, ७<sup>०</sup>; ११<sup>०</sup>; शांश्री  
२, ६, ६<sup>१</sup>; १४, २<sup>१</sup>-४<sup>१</sup>; ८, २४,  
१<sup>०</sup>; काश्री; आपथो २, १४, १०<sup>०</sup>;  
३, २०, ८<sup>०</sup>; १२, १४, १३<sup>०</sup>;

माश्री १, ३, १, १८<sup>०</sup>; ४, २,  
११<sup>०</sup>; ६, ३, ७<sup>१</sup>; वैताश्री  
४, १६<sup>०</sup>; पाय ३, ४, ७<sup>०</sup>; माय  
२, ११, १९<sup>०</sup>; कौसू ११९,  
२<sup>१</sup>; फपातम् शांश्री १, ६, ११;  
काश्री; आपथो १२, २०, ९<sup>०</sup>;  
माश्री २, ३, ७, २<sup>०</sup>; हिश्री ७, ३,  
५६<sup>०</sup>; २१, १, १<sup>०</sup>; पाय २, ६,  
३०<sup>०</sup>; कौसू ५८, १<sup>०</sup>; १३७, ४१<sup>०</sup>;  
फपात आश्री ५, ३, १५; शांश्री  
६, १३, १; काश्री; पाथन > ना  
ऋप्रा ७, ३३<sup>०</sup>; पायात् जैश्रीका  
१५४; बौध ४, ५, ४.

पा->२पा-ल->✓पालि<sup>१</sup>,  
पालयते गौध ११, ३३; पाल-  
यति बौध ३, २, १०; वृदे ३,  
२६; या ६, १७; पालयन्ति  
अप ५२, १६, ७; ७१, १९, ९<sup>०</sup>;  
पालयन्तु माय १, १३, ४<sup>०</sup>;  
पालयेत् कप्र ३, १, ३; ४, ४;  
शंघ १५९ : १३; २७०; विध  
९४, ७.

३पाल- -ले विध ५,  
१३७.

१पाली<sup>१</sup>- -लीम्  
आपय ३, ११.

पाल-क्षेत्रिक- -कयोः  
गौध १२, १८.

पाल-दोष- -पः विध  
५, १३७.

पाल-संयुक्त- -क्ते गौध  
१२, १७.

पालक- पाग २, ४,  
३१; -कः जैश्रीका १५४.

पालन- -नम् वाध १९,  
१; शंघ १३८; वृदे ६, ३२;  
-नात् वाध १९, ५; या ६, १२.

पालनी<sup>१</sup>- -नी बौध  
३, १, ५<sup>०</sup>; २, १०.

पालयित्- -ता या ४,  
२१; ८, ३, ९, २ × ×; -तारः कौसू  
९४, ४; या १०, १६; -तारम्  
या ४, २६; -तारौ या ५, २८;  
-तुः या ४, २६.

२पातन्ध- -न्धः सुधप ८५ : ७.

पातु- पाडभो २, १, ५८.

२पातु- -ता वृदे ३, २६; या ४,  
२१; ८, ३; ९, २; १०, ११;  
१२ × ×; -तारः या १०, १६;  
-तारम् वृदे २, ४०; या ४, २६;  
-तारौ- या ५, २८.

फपायु<sup>१</sup>- -युः ऋप्रा ४, ६१; ७८;  
शुप्रा ३, १०९; -युभिः आश्री  
२, १०, ४; ३, ७, ५; बौधो २६,  
१५ : ७; ऋप्रा ५, ३७; शुप्रा ३,  
७८; तैप्रा ६, ५; -योः शुप्रा

a) या ९, २४ शुप्रा ३, २८ परामृष्टः द्र. । b) पामे. वैप १, १९९१ d द्र. । c) पामे. वैप १, १९८९ h द्र. । d) पामे. वैप १, १९८९ k द्र. । e) पामे. वैप १, १९८९ i द्र. । f) पाव इति पाठः? यनि. शोघः (तु. आपथो ४, ५, ५) । g) पान्तु इति पाठः? यनि. शोघः (तु. मै २, १३, २२) । h) पान्तु इति पाठः? यनि. शोघः (तु. ऋ १०, १५८, १ शांश्री ४, ६, ४ च) । i) वैप १, १९८९ f द्र. । j) सञ्चत् पामे. वैप १, १९९० b द्र. । k) सपा. आपथो ६, १, ७ माश्री १, ६, १, ३ आपथं २, १५, १२ मुञ्च इति पामे. । l) पामे. वैप १, १९९० p द्र. । m) पामे. वैप १, १९८९ j द्र. । n) पामे. वैप १, ९७२ k द्र. । o) पामे. वैप १, १९४० g द्र. । p) पामे. वैप १, १९९० q द्र. । q) पामे. वैप १, १९९० m द्र. । r) पामे. वैप १, १९९१ l द्र. । s) पामे. वैप १, १९९० g द्र. । t) पामे. वैप २, ३४. कल्पय तैप्रा ३, ७, ११, ५ टि. द्र. । u) पामे. वैप १, १९९१ n द्र. । v) पामे. वैप १, १९९१ o द्र. । w) पामे. वैप १, १९९० o द्र. । x) वैप १ द्र. । y) पामे. वैप १, २०८४ j द्र. । z) = पालिका- । a<sup>१</sup>) = वृत्ति- । b<sup>१</sup>) °लिनी इति पाठः! यनि. शोघः ।

२, ५९९; -यौ पा ८, ३, ११९.  
 पा-√पा (रक्षणे) द्र.  
 पांशु<sup>a</sup>-शुभिः काश्रौ १०, १५, १६;  
 गोश्र ४, ९, २०; नाशि २, ८, २१;  
 -शुन् काश्रौ ५, १, ४; १०, १५,  
 १२.  
 पांसु<sup>b</sup>-सम्, -से माशि ४, १४.  
 पांसु<sup>c</sup>-पाठ १, २७; पाग ५, २, ९७;  
 -सवः वाधुश्रौ ४, ४८: ५; अप  
 ७०<sup>३</sup>, २०, ३; या १२, १९६;  
 -सुना अप ५८, १, ४; ६४, ६, ९;  
 -सुभिः काश्रौ ६, ३, ९; आपश्रौ  
 ७, १०, १२; माश्रौ; -सुपु कौस्  
 ८७, २२<sup>१</sup>; -सून् आश्रौ ४, ४,  
 २<sup>१</sup>; काश्रौ; -सुनाम् वौश्रौ  
 २३, १२: २०; माश्रौ २, २,  
 ३, ४.  
 पांसु-कर्म-मे वैश्र ६७: १०.  
 पांसु-खल<sup>d</sup>-लः काश्रौ २२, ३,  
 ४६.  
 पांसु-धिष्णिय-चेपु आपश्रौ १२,  
 १८, ३.  
 पांसु-मांसा(स-आ)दि-दीनाम्  
 शौच १, ८५.  
 पांसु-र-पावा ५, २, १०७; -<sup>१</sup>रे<sup>e</sup>  
 वौश्रौ ६, २४: २८; अप्राय ५,  
 २; १२; या १२, १९६; ऋप्रा  
 १३, २४; तैप्रा १६, २.  
 पांसु-ल-पा ५, २, ९७; -ले या  
 १२, १९.  
 पांसु-वर्ष-<sup>१</sup>र्म अप ५७, २, ४;  
 -<sup>१</sup>र्वे अप ७०<sup>३</sup>, ११, २९.

पांसु-वृष्टि-<sup>१</sup>ष्टिः अप ६७, ७, २;  
 -<sup>१</sup>ष्टौ काध २७५: १०.  
 पांसु-संचय-<sup>१</sup>यम् याशि २, १०७.  
 पांसु-सिकता-<sup>१</sup>ताभिः कौस् २६,  
 १०.  
 पांसु-हर<sup>f</sup>-<sup>१</sup>रे गौध १६, ५.  
 पांसु(सु-अ)श्मा(श्म-आ)दि-  
 -दिपु अप ६४, ४, ५.  
 रपाक-प्रसू. √पच् द्र.  
 रपाक<sup>g</sup>-पाठ ३, ४३; ५, ५३; पाग  
 ४, १, ४; -<sup>१</sup>कः आपगृ २०, १५;  
 मागृ २, १०: १६; वागृ १, ३;  
 हिगृ २, ९, १०; अप ४८, ६२;  
 निघ ३, ८; या ३, १२६;  
 -<sup>१</sup>कम् आश्रौ १, ३, २४<sup>१</sup>;  
 शाश्रौ १, ६, ३<sup>१</sup>; आपश्रौ २४,  
 १२, ७<sup>१</sup>; हिश्रौ २१, १, १<sup>१</sup>; या  
 ३, १२६; -<sup>१</sup>केन अत्र ८, ४;  
 या १०, ४६६;  
 पाका-पा ४, १, ४.  
<sup>१</sup>पाक-तर<sup>h</sup>-<sup>१</sup>रः आश्रौ १, ३, ३०;  
 काश्रौ २, १, २१; वौश्रौ.  
<sup>१</sup>पाक-त्रा<sup>i</sup> आपश्रौ ३, १२, १;  
 २४, १३, ३; वौश्रौ.  
 पाकत्रा-कर्मन्<sup>h</sup>म<sup>१</sup>-<sup>१</sup>सु वौश्रौ  
 २७, २: ११.  
 पाक-व(त्स>)स्ता<sup>j</sup>-<sup>१</sup>स्ता कौगृ<sup>k</sup>  
 ३, २, २<sup>१</sup>; ३; शागृ ३, २, ६.  
 पाक-शासन<sup>m</sup>-<sup>१</sup>नः अप ७०<sup>३</sup>, १८,  
 १; वृदे ६, ७६; ७, १४८; ८, २५;  
 -<sup>१</sup>ने अप ७१, १७, १, ४.  
<sup>१</sup>पाक-स्थानन्<sup>o</sup>-<sup>१</sup>मा अप ४८,

११५; या ५, १५; -<sup>१</sup>मः ऋम  
 -२, ८, ३; वृदे ६, ४२.  
 रपाक<sup>b</sup>-<sup>१</sup>पाग ४, २, ८०; -<sup>१</sup>कम्<sup>१</sup>  
 आश्रौ १, ३, २४; शाश्रौ.  
 पाकायन-पा ४, २, ८०.  
 पाक-दूर्वा<sup>c</sup>-<sup>१</sup>र्वा कौगृ ५, ५, ५<sup>१</sup>.  
 ?पाकनग्निम् अप्राय ६, ८.  
 पाक-व(व>)ती<sup>p</sup>-<sup>१</sup>ती शैशि १८३;  
 माशि ९, २; ३<sup>१</sup>; याशि २,  
 १०; ११<sup>१</sup>; नाशि २, ४, २.  
 ?पाक-शंस<sup>q</sup>-<sup>१</sup>सम् वृदे ६, २९<sup>१</sup>.  
 पाकिमन्-<sup>१</sup>कुक्-<sup>१</sup>क्य-<sup>१</sup>पच् द्र.  
 पाक्षायण-<sup>१</sup>क्षिक-<sup>१</sup>प्रसू, पक्ष-<sup>१</sup>द्र.  
 पाङ्क्त-<sup>१</sup>पाङ्क्तेय-<sup>१</sup>पाङ्क्त-<sup>१</sup>द्र.  
<sup>१</sup>पाङ्क्त्र<sup>o</sup>-<sup>१</sup>त्रान्<sup>१</sup>शुप्रा ५, ३४; ६,  
 ३०.  
 पाचक-<sup>१</sup>चन-<sup>१</sup>च्य-<sup>१</sup>पच् द्र.  
 पाजक<sup>r</sup>-<sup>१</sup>के आपश्रौ ५, ५, १; वौश्रौ  
 १७, ३१: १६; माश्रौ ५, ३, २;  
 हिश्रौ ३, २, ३७.  
 पाजस्<sup>s</sup>-<sup>१</sup>पाठ ४, २०३; -<sup>१</sup>जः  
 आश्रौ ४, ६, ३; शाश्रौ ५, ९, ११;  
 काश्रौ; या ६, १२६; १३;  
 -<sup>१</sup>जसा काश्रौ १६, ३, १४;  
 आपश्रौ १६, ४, १; वौश्रौ.  
 पाज्य-<sup>१</sup>पज्ज द्र.  
 पाञ्चजनीन-<sup>१</sup>पाञ्चजन्य-<sup>१</sup>पञ्चन्-<sup>१</sup>  
 द्र.  
 रपाञ्चजन्य-<sup>१</sup>( > न्यायनि-पा.)  
 पाग ४, २, ८०.  
 पाञ्चदश-<sup>१</sup>चदश-<sup>१</sup>चपत्य-<sup>१</sup>,  
<sup>१</sup>ञ्चमाहिक-<sup>१</sup>प्रसू. १५४न्-<sup>१</sup>द्र.

a) = पांसु । b) अर्थः व्यु. च ? । c) वैप १ द्र. । d) मलो. कस. । e) पाभे. वैप १, १९९२ i द्र. ।  
 f) विप. (वायु-) । उत. । g) पाभे. वैप १ परि. अनुत्तम शौ ४, १६, ६ टि. द्र. । h) वैप १, १९९३ e, g द्र. ।  
 i) ञ् इति नृको. । j) विप. । वस. । k) पावक-यथसा इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. शागृ.) । l) सपा.  
 शागृ ३, २, ५ नित्यवत्सा इति पाभे. । m) = इन्द्र- । उत. । n) पाभे. वैप १, १९७१ k द्र. । o) पाभे.  
 वैप १, १९९३ q द्र. । p) = विवृत्ति-विशेष- । व्यु. ? । MW. यनि. < १पाक- इति । q) = पाङ्क्त्र- ।  
 r) पाभे. वैप १, १९९४ d द्र. । s) = [महानलोपकरण] पाञ्च-विशेष- । व्यु. ? ।



१ पाञ्चाल- १ पाञ्चाल- द्र.  
 २ पाञ्चाल-, °लायन- २ पाञ्चाल- द्र.  
 पाञ्चि- २ पाञ्चन- द्र.  
 पाञ्चर्य- पञ्चर- द्र.  
 पाट् पाग १, ४, ५७.  
 पाट्- पाठभो २, १, ३३७.  
 पाटन- √पट् (बधा.) द्र.  
 १ पाटल, °लका<sup>१</sup> - (> °ल्य-, °लक्य- पा.) पाग ४, २, ४९.  
 पाटला<sup>०</sup> - °ले अप ३६, ९, ३१.  
 पाटलि- पाठभो २, १, २३२.  
 पाटलिपुत्र<sup>१</sup> - °त्रम् अप ५६, १, २.  
 पाटली<sup>०</sup> - (> २ पाटल- पा.) पाग ४, ३, १३६.  
 पाटव- पटु- द्र.  
 १ पाटवः कौसू १४१, ३७.  
 पाटा<sup>१</sup> - > पाटामूल- °लम् कौसू ३८, १८; अशां १९, ६.  
 पाटित- √पट् (बधा.) द्र.  
 पाट्टपट<sup>१</sup> - पावा ६, १, १२.  
 पाट्टरक- पट्टर- द्र.  
 पाट्ट्यमान- √पट् (बधा.) द्र.  
 पाठ-, पाठक- √पट् द्र.  
 पाठन<sup>१</sup> - (> °नी- पा.) पाग ४, १, ४१.  
 पाठयत्- √पट् द्र.  
 १ पाठा - (> १ पाठय- पा.) पाग ४, २, ९७.  
 २ पाठा<sup>१</sup> - °ठाम् आपण ९, ५; वृदे ८, ५६.  
 पाठा-पृश्निपर्णी-कर्णिकार-राजवृक्ष-कण्टक-तिल्वक-विभीतका(क-

अ) क-शर-श्वदंष्ट्रा(ष्टा-अ) ध्यण्ड- °ण्डाः हिपि १३: ६.  
 पाठीन<sup>१</sup> - पाठभो २, २, १९८.  
 पाठीन-रोहित- °तौ शंघ २२४.  
 पाठीन-रोहित-राजीव-सिंहतुण्ड- शकुल-वर्जम् विध ५१, २१.  
 २ पाठेय<sup>१</sup> - (> °यक- पा.) पाग ४, २, १२७.  
 पाणि<sup>१</sup> - पाठ ४, १, ३३; -णयः आपश्रौ ५, ५, १०; -णिः वीश्रौ २, २: २०; कप्र १, ८, ११; विध २४, ५; या २, २६७; माशि; -णिना आश्रौ १, ३, २५; ५, ६, ९; काश्रौ; -णिभिः आश्रौ ६, १२, ७; आपश्रौ; -णिभ्याम् आश्रौ ३, १, १६; काश्रौ; -णिम् आश्रौ १, ७, ३; शाश्रौ २, ९, १३; काश्रौ; -णियु आश्रु ४, ७, २१; २३; कौयु; -णी आश्रौ १, १, २३; ३, १०, ६१; १३, १४; शाश्रौ; या २, २६; -णीन् आश्रौ ४, ५, ७; ६, १२, ११; ८, १३, २२; शाश्रौ; -णेः शाश्रौ १, १०, १; आपश्रौ; -णौ आश्रौ १, ७, ३; २, ९, ९; ३, १४, १८; शाश्रौ; -ण्योः आश्रौ ३, १०, ८; ४, ८, ११; शाश्रौ.  
 पाणि-कोष्ठ- °ष्ठम् माश्रौ १, २, ४, ८; -ष्ठे माश्रौ १, २, ४, १३; वाश्रौ १, ३, १, ३७.  
 पाणि-गृही(त>)ता<sup>१</sup> - °तायाः वाध १२, २३.

पाणिगृहीती- पाग २, २, ३७;  
 पावा ४, १, ५२.  
 पाणिगृहीति-का<sup>१</sup> - °काकाध २८०: ३.  
 पाणिग्रहण<sup>०</sup> - °णम् वीश्रु २, ६, १७;  
 वैश्रु ३, १: १×४; -णस्य द्राण १, ३, ४; -णात् आमिण १, ७, १: ४; वीश्रु २, ६, २०; भायु; -णे वैश्रु ६, ११: १०; गोयु.  
 पाणिग्रहण-प्रभृति- °ति वीश्रु २, ६, २१; वैश्रु ६, १५: १; १८: ७.  
 पाणिग्रहणा(ण-आ)दि- °दि आश्रु १, ९, १; -दिः हिण १, २६, १००.  
 पाणिग्रहणी(य>)या<sup>१</sup> - °याः गोयु २, २, १५.  
 पाणि-ग्रहा(ह-आ)दि- °दिः आमिण २, ७, २: १००.  
 पाणि-ग्रह<sup>१</sup> - °हः गोयु २, २, ४; द्राण १, ३, ६; -हम् गोयु २, २, १४; द्राण १, ३, २८; -हस्य गोयु २, १, २२; द्राण १, ३, ७; विध १५, १२; १७; -हे वाध १७, ७४.  
 पाणिग्रह-वत् वाध १७, ६१.  
 १ पाणि-घ- पा ३, २, ५५.  
 पाणि-तल- °ले आश्रौ १, १०, ८; -लेन शंघ ४५७: ५; ४५८.  
 पाणितल-मात्र-पुष्क(र>) रा<sup>१</sup> - °राः माश्रौ १, २, १, ६.  
 पाणि-दण्ड- पाग २, २; ३७.  
 पाणि-निमार्जन- °नम् वीश्रौ २८,

a) पाका. पाठः । b) अर्थः व्यु. च १ । c) = देवी-विशेष- । व्यु. ? । d) = नगर-विशेष- । पटना इति नभा. । व्यु. ? वस. इति शक. । e) = वृक्ष-विशेष- । व्यु. ? । f) वैप १ द्र. । g) < पाटि < √पट् । h) पानठ- इति । पक्षे । भाण्डा. प्रभृ. । i) पावा- इति पाका. । j) = औपधि-विशेष- । व्यु. ? । k) = मत्स्य-विशेष- । व्यु. ? । l) तु. पागम. । m) विप. । वस. । n) स्वार्थे प्र. । o) = संस्कार-विशेष- । p) = औपास-नामिः । q) सपा. °हणा° <> °हा° इति पाभे. । r) = ऋच्- । s) = परि-णेतृ- । उच. उप. कर्त्तरि कृत् । t) विप. (लुच्- ) । वस. > वष. । वैपय-च-१४

१२:२३; हिमि २१:८.  
 पाणि-नेय- -याय अप ३१,१०,५.  
 पाणि-धम- पा ३,२,३७.  
 पाणि-पद्म<sup>a</sup>-, पाणि-पल्लव<sup>a</sup>- पाण  
 २,१,५६.  
 पाणि-पाद- -रम् आपघ २, १९,  
 १; विध ९७,४; हिघ २,५,७३;  
 -दान कौसू ७१, १७; ८६,२०;  
 -द्वौ वैश्रौ १०,१५:१; आमिग्य  
 २, ६, ८:९; ७, ६:२९; वैग्य  
 १,२:४; शंघ ५५.  
 पाणिपाद-चपल- -ल: वाघ ६,  
 ४२.  
 पाणिपाद-प्रक्षालन- -नम् गौघ  
 १०,५२.  
 पाणिपाद-शालाका- -का: विघ  
 ९६,५९.  
 पाणि-प्रक्षालन- -नम् हिश्रौ १०,३,  
 ३५.  
 पाणिप्रक्षालन-प्रभृति- -ति  
 वाश्रौ १,६,२,९.  
 पाणिप्रक्षालन-प्रस्तराहरणा(श-  
 आ)दि- -दि वैश्रौ १५, १:४.  
 पाणिप्रक्षालना(न-आ)दि- -दि  
 आपश्रौ ७,८,१; ८, ९, १३××;  
 वैश्रौ.  
 पाणि-सन्ध्य- -न्वे वाघ ३,६७.  
 पाणि-मात्र-> -त्र-पुष्क(र>)रा<sup>b</sup>-  
 -रा: काश्रौ १, ३, ३८; -राम्  
 १७, ४, १२.  
 पाणि-मार्ग<sup>c</sup>- -र्गम् काय ४,१९.

पाणि-मुख<sup>d</sup>- -ख: बौघ १, ११,  
 २८; -तखा: आग्य ४, ७, २२;  
 गौषि २,३,३४.  
 पाणि-वज्र<sup>e</sup>- -पाग २,२,३७.  
 पाणि-वच मीसू ६,६,१२९.  
 पाणि-श्रुपां(र्षि-आ)स्य-द्वि- -विभि:  
 कप्र १,९,१४<sup>f</sup>.  
 पाणि-संक्षुब्ध- -ब्धेन आपघ १,  
 ४,२१; हिघ १,१,१४०.  
 पाणि-समूह- -हम् आपघ २, १२,  
 ५; हिघ २,४,४१९<sup>g</sup>.  
 पाणि-संमर्शन- -नात् बौश्रौ २५,  
 ६:३; -ने बौश्रौ २०, ५:१;  
 -नेन बौश्रौ २१,३:१०.  
 पाणि-सर्ग्य- पावा ३, १,१२४.  
 पाणि-हृदय- -यात् कौसू ११,  
 १४.  
 पाणौ-कृत्य- पा १,४,७७.  
 पाण्वा(शि-आ)घार<sup>h</sup>- -रे अप ३०<sup>i</sup>,  
 २,७.  
 पाण्वा(शि-आ)त्य<sup>d</sup>- -त्य: शांग्य  
 ४,७, ५५<sup>j</sup>; -त्या: कौग्य ३,९,  
 ५०<sup>k</sup>; वाघ १३,१६.  
 पाण्वा(शि-आ)हुति- -ति: कप्र १,  
 ९,११.  
 पाणिक- ✓पण् द्र. त  
 पाणि-कोष्ठ- प्रसृ., १पाणि-घ-  
 पाणि-द्र.  
 २पाणिघ<sup>l</sup>- -घ: अप ४८,१०१<sup>m</sup>.  
 पाणि-तल-, °दण्ड- पाणि-द्र.  
 पाणिन-, °नि- पाणिन्- द्र.

पाण्ट- (> ष्टी- पा.) पाडभो २,  
 २,९५; पाग ४,१,४१<sup>n</sup>.  
 पाण्ड-> (> ष्टी-) पाण्ट- टि. द्र.  
 पाण्डर<sup>o</sup>- -रम् आपश्रौ १८, १४,  
 १<sup>m</sup>; २<sup>m</sup>; -राय भाग्य २, १:  
 ५<sup>n</sup>.  
 पाण्डर-ताप्यो(र्ष्य-उ)ष्णीष- -याणि  
 आपश्रौ १८, १४,३.  
 पारिडत्य- पण्डा-द्र.  
 १पाण्डु<sup>o</sup>- पाडभो २,१,५२; पाग ५,  
 १, १२२<sup>p</sup>; -ण्डु: अप ५३,  
 १,३; -ण्डुना अप ५८<sup>q</sup>, २, ५;  
 -ण्डुम्-कौसू ४८, २३; -ण्डुन्  
 अप ६३,१,२.  
 १पाण्डव-, पाण्डिमन्- पा ५, १,  
 १२२.  
 पाण्डु-कम्बल<sup>r</sup>-> °लिन्<sup>r</sup>- पा ४,  
 २,११.  
 पाण्डु-ता-, पाण्डु-त्व- पा ५, १,  
 १२२.  
 पाण्डु-पत्रा(त्र-आ)शिन्<sup>s</sup>- -शिन:  
 वैघ १,८,१.  
 पाण्डु-भूम- पावा ५,४,७५.  
 १पाण्डुर- पावा ५,२,१०७.  
 पाण्डु-रोग-> °गिन्- -गी शंघ:  
 ३७६; ३७७:४.  
 २पाण्डु<sup>t</sup>-> (२पाण्डव-, पाण्डवेष-  
 पा.) पाग ४, १, ११२<sup>u</sup>;  
 १२३.  
 पाण्डु-रुतराट्<sup>v</sup>- पाग २,२,३१.  
 पाण्डु-नन्दन- -०न शंघ १२९.

a) तु. पागम. ।

b) विप. (लुच्-). वस. ।

c) उप. = मार्जन- ।

d) विप. । वस. ।

e) पाणित्वम् इति जीसं. । f) पाणिसूर्पस्त्र्यदारुभिः इति जीसं. । g) णिम् इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. माष्यम्) । h) नलो. कस. ।

i) परतरं पाभे. । j) = पर्वत- व्यु. ? । k) तु. पाका. । पाण्ट- इति भाण्डा. प्रसृ. । l) विप., नाप. । वर्णे तद्वति च वृत्तिः । वैष १ द्र. । m) सपा. पाण्डरम् &lt;&gt;

पाण्डुरम् इति पाभे. । n) दवेतं पाण्डरम् इत्यस्य स्थाने सपा. हिश्रौ १३, ५, २३ दवेतपाण्डरम् इति, सा (नाश ५, ३, ५, २१) इयेतं पाण्डरम् इति पाभे. । o) = वर्ण-विशेष-, तद्वत्- । व्यु. ? &lt; ✓पण्ड् इति पाण्डु ३, ३७ ;

&lt; ✓पन् इति पाडभो. । p) = कम्बल-विशेष- (तु. वापाभा.) । q) = वानप्रस्थ-विशेष- । r) व्यप. । व्यु. ? ।

३पाण्डु<sup>a</sup> - > पाण्ड्य - पावा ४, १, १६६.

२पाण्डुर, रा<sup>b</sup> - र्म् हिश्रौ १३, ५, २३<sup>c</sup>; विघ १, ३७; अप ५०, ७, ३; ६८, २, ६; -रा अप २१, ६, २; -राणि अप ६८, २, २०; ३५; -राभिः अप ५२, ५, ४; -रासु विघ ९९, १०.

पाण्डुहृद्<sup>d</sup> - दाः वौश्रौप्र ४२ : ४.

पाण्ड्व<sup>e</sup> - ण्ड्वम् काश्रौ १५, ५, १२.

पाण्य(णि-आ)धार - प्रसृ. पाणि - द्र.

१-२पात - पातक - प्रसृ., पातन्तक - √पत् (गतौ) द्र.

पातवे, पातवै, १पातव्य - √पा (पाने) द्र.

२पातव्य - √पा (रक्षणे) द्र.

पाताण्डनीय<sup>f</sup> - न्याः चव्यू २ : ४.

पाताल<sup>g</sup> - पाठ १, ११७.

पाताल-सप्तक - कम् शंघ ११६ : ४; विघ १, १५.

पाति - पाठ ५, ५.

पातित - √पत् (गतौ) द्र.

? पातीतः<sup>h</sup> वैताश्रौ १६, १७<sup>f</sup>.

पातु - √पा (रक्षणे) द्र.

पातुक - √पत् (गतौ) द्र.

२पातु - √पा (पाने) द्र.

२पातु - √पा (रक्षणे) द्र.

पात्तिगणक - √पद् द्र.

पालीवत - लीशाल - पति - द्र.

पात्र<sup>i</sup> - पाठमो २, ३, ७६; पाग २, ४, ३१; -त्रः वौश्रौ ६, १ : ८; -त्रम् आश्रौ ५, १४, २; ६, ४, १०; शाश्रौ; आम्रिष्ट ३, १, २ : ११;

१५; १८xx; या ५, १<sup>३</sup>क; ऋप्रा ४, ७८; -त्रयोः आपश्रौ ८, २, ९; १२, २६, १८; भाश्रौ; -त्रस्य आपश्रौ १२, ११, ३, ४; माश्रौ २, ३, ३, १९<sup>३</sup>; काश्रु २४, १२; जैश्रु १, २ : ४; या ८, २<sup>३</sup>; -त्राया ३, २०<sup>f</sup>; -त्राणाम् आश्रौ २, ७, २०; काश्रौ; -त्राणि आश्रौ २, ६, ४; शाश्रौ; -त्रात् वैश्रु १, १० : १; शंघ १८१; वौघ १, ६, ४७; -त्रान् शाश्रौ १६, १, २; वौश्रौ २, १३ : २०; -त्राम्याम् आपश्रौ १२, १, ९; १३, ९; हिश्रौ १४, ३, ८; -त्रे काश्रौ १०, ३, ८; १२, ५, १६xx; आपश्रौ; -त्रेण शाश्रौ १६, १७, ९; काश्रौ; -त्रेभ्यः काश्रौ २, ४, २; काठश्रौ; -त्रेषु काश्रौ २५, १०, २०; आपश्रौ; -त्रैः आपश्रौ १८, १६, ८; १९, ४, ६; वौश्रौ.

पात्री - पागम ५६; -त्री वैश्रौ ११, ९ : ८; विघ ९२, १५; -त्रीः वाधुश्रौ ३, ७६ : १२; वैश्रौ ९, १ : ९; हिश्रौ ५, ३, ६; -त्रीम् शाश्रौ ४, ३, २; काश्रौ; -त्रीषु वैश्रौ ९, २ : ५; हिश्रौ ५, ३, २१; -त्र्या आपश्रौ १, १८, ७; वौश्रौ ११, ५ : ११; १५, ३१ : ११; भाश्रौ; -त्र्याः आपश्रौ ३, ८, ५; वौश्रौ १, ५ : ८; -त्र्याम् शाश्रौ ४, ३, ४; काश्रौ २, ३, २८; ४, २१; ५, १०xx; आपश्रौ; -त्र्योः

काश्रौ ५, ६, १०; माश्रौ १, ७, ४, ६; ६, १, ४, २८; -त्र्यौ शाश्रौ ४, १४, २८; कौश्रु ५, ३, १८.

-? पात्रीडाचमसम् काठश्रौ ७; काश्रु ४६ : ८.

पात्री-निर्णेजन<sup>m</sup> - नम्<sup>k</sup> आपश्रौ १, २५, १४; भाश्रौ १, २६, १०; हिश्रौ १, ६, ५६.

पात्री-विल - ले काश्रौ २, ३, २९.

पात्री-संक्षालन<sup>n</sup> - नम् वौश्रौ १, १० : १३.

पात्री-स्य - स्यम् शाश्रौ ५, ८, २.

पात्री-स्थान - ने वाश्रौ ३, ३, ४, ४.

पात्र्य(त्री-अ)ङ्गुलि-प्रक्षालन<sup>m</sup> - नम् काश्रौ २, ५, २६.

पात्र-चमस<sup>m</sup> - सम् जैश्रु १, १९ : ३६.

पात्र-चय - न्यः आम्रिष्ट ३, ७, ३ : २१; वौपि २, २, ३; १३.

पात्रचये(य-इ)ष्टका-वर्जम् हिपि १२ : ७.

पात्र-चयन - नम् हिपि १९ : ८.

पात्रचयन-प्रभृति - ति आम्रिष्ट ३, ७, ३ : १३; वौपि २, १, ६.

पात्र-वस<sup>(:)</sup> कप्र १, ३, ११.

पात्र-दर्शन - नात् मीसू ८, २, १४.

पात्र-देय - यम् जैश्रु २, १ : २४<sup>f</sup>.

पात्र-दौर्बल्य - ल्यात् वाघ ६, ३१.

पात्र-धर्म - मैः वाश्रौ १, ६, २, १२.

a) = जनपदशब्द-क्षत्रियविशेष-। व्यु. ? । b) पाण्डुर - इत्यनेन स-न्यायता द्र. । c) पात्रे. पृ १५६३ m द्र. । d) व्यप. । व्यु. । e) वैप २, ३खं. द्र. । f) = शाखा-विशेष, तदधेतृ-। व्यु. ? । g) = लोक-विशेष-। व्यु. ? । h) पाठः ? पतितः इति शोधः (तु. G., सपा. ऋ १०, १७, १३ स्कन्तुः इति पात्रे. च) । i) पुं. न. च -नाप. (भाण्ड-). शिष्टं वैप १ द्र. । j) वैप १, १९९५ g द्र. । k) सपा. पात्रीनि<sup>o</sup> <> पात्रनि<sup>o</sup> इति पात्रे. l) = पात्री-निर्णेजन-। m) नाप. । द्रस. > कास. उप. करणे कृत् । n) मलो. कस. (तु. भाष्यम्) ।

पात्र-निनयन<sup>a</sup>- नम् वाष १५,  
११.  
पात्र-निर्गोजन<sup>b</sup>- नम् माश्रौ ९,  
१५,४; वैश्रौ ४,१०: १४०.  
पात्र-न्यासा (स-आ)दि- दि कप्र  
३,४,२.  
पात्रन्यासादिक- कम् कप्र ३,  
४,१.  
पात्र-पाणि<sup>d</sup>- णि: पाण् २, १६,  
२३; आमिण् २, १, ३: १५१<sup>e</sup>;  
माण् १,२३: ७; हिण् २,३,७;  
जैण् १,८: १७.  
पात्र-प्रक्षालन- नम् काश्रौ ९,१४,  
७; -नात् काश्रौ १०, ३, २१;  
६,७; १२,६,३.  
पात्र-प्रक्षालना (न-अ)न्त- न्ते  
काश्रौ १०,७,९.  
पात्र-प्रयोग- ना: आपश्रौ ८, १३,  
१४; १०,३०,४; १२, २५, ४;  
-नात् वाश्रौ १,६,२,९.  
पात्र-प्रयोजन- नम् वाश्रौ ३,२,१,  
२७; -नात् नाश्रौ १, ७, १,  
१३.  
पात्र-प्रोक्ष- क्ष: आपण् १,१९.  
पात्र-प्रोक्षणा(ण-आ)दि- दि काश्रौ  
१०,९,१३.  
पात्र-प्रोक्ष(ण>)णी- णी: वौश्रौ  
२४,३६: ६.  
पात्र-भूत- वात् आमिण् ३, ११,  
१: ११.  
पात्र-भेद- द्: मीसू ४, १, ३३;  
५,२,१६; -द् वैश्रौ ४,९, ४.  
पात्र-भेदन- ने वौश्रौ २८, ११: ४.  
पात्र-भन्त्र-हविर्-द्विज- जा: श्रप  
२३,१०,७.

पात्र-मुख- त्ते काश्रौ ९,१३,१४.  
पात्र-योग- ना: आपश्रौ ७,२२, २;  
१३,१९,२; १७,१६,३:  
पात्र-योजन- नम् काश्रौ ९,२,१.  
पात्र-लाम- भ: मीसू १०, १,  
४७.  
पात्र-विनियोग- ना: अप्राय ३, ६;  
-नाम् अप्राय ३,७,८.  
पात्र-वृद्धि- दि: मीसू ५,२,८; ९.  
पात्र-शेष- षम् काठश्रौ ६३.  
पात्र-संसादन- नात् आपश्रौ १,  
१५,१०; -ने वैश्रौ ९,४: १०.  
पात्रसंसादन-काल- ले आपश्रौ  
३,१६,१५; ८,२,१×४; वैश्रौ.  
पात्रसंसादन-प्रवृत्ति- तीनि  
हिश्रौ ४,४,४५; ८,१,४८; ९,४,  
१; ७,४५.  
पात्रसंसादना (न-आ)दि- दि  
आपश्रौ ७,२२,१; ११,२०,१३.  
पात्र-संक्षालन<sup>f</sup>- नम् भाण् ३,१४:  
२३.  
पात्र-सद्- त्से माण् १,९,१३<sup>g</sup>;  
वाण् ११,१६; १५, ८.  
पात्र-संपात- ते विष ९६,६.  
पात्र-संमार्जन-काल- ले वैश्रौ १०,  
७: ८.  
पात्र-सादन- नम् काश्रौ ९,४,३७;  
९,६, ५०; -ने वैश्रौ १०, ६:  
१०.  
पात्रसादन-काल- ले आमिण्  
३,३,१: २२.  
पात्र-स्य- स्यम् काश्रौसं ३६:  
१३.  
पात्र-सुवा (व-आ)दि- द्यव: वैश्र  
१,८: ८.

पात्र-हरण-सानघ्ये- च्यात् काश्रौ  
१०,६, २४.  
पात्रा(त्र-आ)दि-संभार- नात् वैश्र.  
१, ८: ९.  
पात्रादिसंभार-युक्त- क्त: वैव  
२,३,६.  
पात्रा(त्र-अ)न्तर- नम् शंष १८१.  
पात्रान्तरा (र-आ)नयन- ने  
वौष १,६,४७.  
पात्रा(त्र-आ)साद- द्दम् लप २२,  
११,५.  
पात्रा(त्र-आ)सादन- नम् काश्रौ  
४,१,३; २६,२,९.  
पात्रिक<sup>h</sup>- पा ५, १, ४६;  
५४.  
पात्रिव<sup>i</sup>- पा ५, १, ६८.  
पात्रीण<sup>j</sup>- पा ५, १, ५३.  
पात्रे-बहुल-, पात्रे-स [सं]मित-  
पा, पाण २, १, ४८; ६, २, ८१.  
पात्रौ (त्र-ओ)दन- नात् वाधूश्रौ ४,  
७४: ३२.  
पात्र<sup>k</sup>- पा ५, १, ६८.  
पात्रीव<sup>l</sup>- पाण २, ४, ३१.  
पाथ- २पथ- द्. ३  
पाथस्<sup>m</sup>- पाठ ४, २०४; २०५; -य:  
आश्रौ १, ११, ८; ४, ५, ३; शाश्रौ  
१६, ३, ३२; आपश्रौ; वा ६, ७४;  
८, १७४.  
१पाथ्य- पा ४, ४, १११.  
पाथिक- २पथिक द्.  
पाथिक्य- √पथ् द्.  
पाथित्- पाठ २, ११४.  
१पाथेय- √पथ् द्.  
२पाथेय- (>थक्-पा.) पाण ४, २,  
१२७.

a) माप. > नाप. (कर्म-विशेष-). b) विप., नाप. c) पाथे. पृ १५६३ k द्. d) =वात्प्रह-  
विशेष-। e) णिम् इति पाठः ? चनि. शोषः (तु. पाण्. प्रवृ.)। f) =पात्री-निर्गोजन-। g) दिव.। पात्र-  
=परिमाण-विशेष-। h) पाक्व. पाठः। i) श्र्चः व्यु. च ?। =चञ्चोपकरण- इति पाणम.। j) वैष १ द्.।

१२पाथ्य<sup>a</sup>- थ्यः माश्रौ ६, १, १,  
२६; वैताश्रौ ५, १४.

पाद्- १पाद- √पद् द्र.

२पाद<sup>b</sup>- (>पादायन- पा.) पाग  
४, १; १.१०.

पादक्रमिक-, पादविक-, पादिक-,  
१पादु- √पद् द्र.

१२पादु<sup>c</sup>- दुः निघ. ४, २; या ५,  
१९६.

१-२पादुक- √पद् द्र.

१पादुकहेम<sup>d</sup>- म्म शैशि ९८१; १०४

पादू-, पाद्वत-, पाद्य- √पद् द्र.

१पान- √पा (पाने) द्र.

२पान<sup>e</sup>- (>पानी- पा.) पाग ४, १,  
४१.

३पान<sup>f</sup>- (>पान-र- पा.) प्राग ४, २,  
८०.

पानक- प्रभु. √पा(पाने) द्र.

पानठ- (>ठी-) पाठन- टि. द्र.

पानभो<sup>g</sup>- न-न्यापद्- √पा (पाने) द्र.

पानस्य<sup>h</sup>- स्याः वौश्रौ ४१; १११.

पानहस्त-, नीय-, पान्त √पा  
(पाने) द्र.

पान्थ- √पथ द्र.

पाप, पा<sup>i</sup>- पाठ ३, २३; -पः शांश्रौ  
१५, १९, ११; वौश्रौ २, ५; ८; १;

या ५, २६; -पम् शांश्रौ १५,  
२४, ११; काश्रौ १२, २, ८; १;

आपश्रौ; आगृ २, ४, १४; पागृ  
३, ३, ६; हिगृ १, १९, ७; १;

या १३, ६; १४, २९; ३४; १;  
पा ६, ३, ६८; -पय्या<sup>j</sup> आपमं

१, १७, ८; वौध २, ६, ३४; -पस्य  
आपश्रौ ६, ६, ८; शंघ १३३;

- वौध ४, ८; १०; -पा आज्यो  
१३, ८; -पाः अप ६४, ९, ८;

वौध १, ११, २१; विध ४३, ३२;  
या ६, २५; -पात् आश्रौ ९, ३,

१२; वाश्रौ; -पानाम् वाध २५,  
१; १२; २७, २०; शंघ १६२; विध

५४, ३४; -पानि जैगृ १, २०;  
२९; वाध; -पाम् अत्र ७,

११५; -पाय अत्र १३, ४, (४); १;  
-पासः या ६, २५; १६; -पे

शौच २, ७९; -पेन आपश्रौ १०,  
१२, १३; आमिगृ २, ६, १;

२६; विध ९३, १०; वृदे ४,  
२३; या १२, ३; -पेभ्यः आमिगृ

२, ६, २; ६; वौध; -पैः द्राश्रौ  
९, ४, १७; विध ८, ३७.

पापी<sup>k</sup>- पा ४, १, ३०; -पी शांश्रौ  
१४, ५१, १; कप्र ३, ६, ३; -पीः

आपश्रौ ४, १५, ४; भाश्रौ ४, २१,  
२; हिश्रौ ६, ४, २१; -पीनाम्

पागृ १, १२, ४<sup>l</sup>; -पीम् शांश्रौ  
१४, ५१, १<sup>m</sup>; -प्या आश्रौ ९,

७, २२; शांश्रौ १४, ५१, १.

पापं-विलोम-पूर्व<sup>n</sup>- वै भाशि ५.

१पाप-क<sup>o</sup>- कम् शांश्रौ १५, २४,  
१; १६, ९, ७; आगृ ३, ६, ७;

आपध २, १२, १६; हिध २, ४,  
५३; या ३, ८; १४; १९; ४, २४;

६, १; ३; २३; ९, ४; -केन  
वौध २, ६, ३२; १०, ८.

१पाप-कर्मन्- -मैभिः वाध १३,  
४९; -मैभ्यः वौध ४, ७, १.

पापकर्म-रति<sup>p</sup>- -तिः वाध  
२७, ४.

पापकर्मा(र्म-अ)पनुत्ति- -त्तये  
जैश्रौका १९९.

पापकर्मिन्- -र्मिणः शंघ ३७४.

२पाप-कर्मन्<sup>q</sup>- -र्मणाम् वौषि २,  
८, १; -र्मभिः जैश्रौ १ : १५;

-र्मिणम् जैश्रौ १ : १४; वाध  
२६, १९.

पाप-कृच्छ्र- -च्छ्रयोः वृदे ७, ९५.

पाप-कृत्- -कृत् वौश्रौ १८, १२ =  
१५; १३ : २; वाध; -कृतः

आश्रौ १०, ७, ६; १२, ९, १७;  
शांश्रौ; या १०, ११; -कृता कप्र

२, ७, ८; -कृताम् शंघ १०४.

१पाप-कृत्या<sup>r</sup>- स्या काश्रौ १२, २,  
८; द्राश्रौ ७, ३, ६; लाश्रौ ३, ३, ९.

पाप-घ्न- -घ्नः वौध ४, ५, २२;  
-घ्नम् वौध ४, ८, ५.

पाप-चारिन्- -रिणः वाध १८, १३-

पाप-चेतस्<sup>s</sup>- -तसः वृदे ८, २८.

पाप-चैल- -लम् कौस् ६३, २.

पाप-धी<sup>t</sup>- -धियः या ५, २३; १०,  
५६; -धियम् या ५, २.

पाप-नक्षत्र- -त्रे कौस् ४६, २५.

१पाप-नामन्- -मनी या ४, २१.

२पाप-नामन्<sup>u</sup>- -मा या ६, १२.

१पाप-नाशन- -न अशां ३, १;  
-नः अप २४, ३, १.

पाप-नाशि(न्>)नी- -न्यः वौध  
४, ६, २.

पाप-प्रणाशि(न्>)नी- -नी वौश्रौ  
२९, ८; १५.

पाप-प्रशमन- -नम् शंघ १०४.

पाप-बहुल- -ल्लाः शंघ २६२.

पाप-बुद्धि<sup>v</sup>- -द्धिः वैगृ ५, ९ : ५;

a) वैप १, १९९७. d द्र. । b) व्यप. । व्यु. ? । c) वैप १, १९९७. e द्र. । d) अर्थः व्युः च ?  
e) बहुक इति पाठः? यनि. शोधः ( तु. उत्तरं स्थलम् ) । f) तु. पाका. । यान- इति भाण्डा. प्रभु. ।  
g) रपीन- इति B.P.G., पांसि. न. । h) वैप १. द्र. । i) पाभे. पृ. २८५. i द्र. । j) पाभे. वैप २, ३४. पाशम्  
मंत्रा १, १, १४ टि. द्र. । k) लाघासं. पिनाम् इति । l) हस. > वस. । m) स्वार्थे प्र. । n) विप. । वस. ।

-द्रिम् वैगृ ५, ९ : १४.  
 पाप-भद्र- -द्रम् वाधूश्री ३, १ :  
 १; -द्रयोः वीश्री १८, २९ : ४१.  
 पाप-भीरु- -रुम् वाध ६, ३० :  
 पाप-मरण- -णे वैगृ ७, ४ : ११.  
 पाप-मृत- -तस्य वैगृ ७, ४ : १४.  
 पाप-यक्ष्म-गृहीत- -तः वीश्री १३,  
 २८ : १; २३, ३ : २१; २८,  
 १ : १; -तस्य हिश्री २२, ४, १५.  
 पाप-योनि<sup>०</sup>- -निषु कौशि ४०.  
 पाप-रोग<sup>०</sup>- -गात् गोयृ ४, ६, २;  
 -नेण वृदे ७, ४२.  
 पापरोगा(ग-अ)न्वित- -तः वैगृ  
 ५, ११ : २.  
 पापरोगिन्- -गिणाम् वैगृ ३, ७ :  
 २२.  
 पाप-लक्ष(रा>)णा<sup>०</sup>- -णायाः कौस्  
 ४२, १९.  
 पाप-वलीय(सु>)सी- -सी गोयृ  
 १, ६, २.  
 पाप-वस्यस<sup>०</sup>- -सम् आपश्री १६,  
 २, ४१.  
 पाप-वाद- -दः वीश्री २, ५ : २३१.  
 पाप-विनाशन- -नाः वीध ४, ६, १.  
 पाप-विवर्जित- -तः शंघ ४४१.  
 पाप-शकुनि<sup>०</sup>- -निः भागृ २, ३१ :  
 १३१.  
 पाप-शान्त्य(न्ति-अ)र्थ- -र्थम्  
 जैश्रीका ११८.  
 पाप-संयुक्त- -क्ताः शंघ ४४०.  
 पाप-संकल्प<sup>०</sup>- -ल्पाः या १०, ५.  
 पाप-संचय- -यः आश्रितृ २, ४, ५ :  
 २३; वीध ४, ७, ८.

?पाप-सम<sup>०</sup>- पाग २, १, १७; -सम्  
 वीश्री १४, १३ : ३१; वैताश्री  
 ३१, ५.  
 १पाप-स्पर्श<sup>०</sup>- -शै<sup>०</sup> गोयृ ३, ३, ३२.  
 २पाप-स्पर्श<sup>०</sup>- -शै<sup>०</sup> द्रायृ २, ५, ३५.  
 १पाप-स्वप्न- -प्नात् वीश्री २८,  
 ९ : २०; -प्ने वीगृ ३, ५, १४.  
 पाप-हर- -रम् अप ८, १, ६.  
 पाप-हारि(न्>)णी- -णीम् अप ७,  
 १, ६.  
 पापां(प-अं)श-भाज्- -भाक् शंघ  
 २६२.  
 पापा(प-अ)णक्- -के पा २, १, ५४.  
 पापा(प-अ)त्मन्<sup>०</sup>- -त्मनाम् विध  
 ४४, १; -त्मा शंघ ४४१; विध  
 ५४, १.  
 पापा(प-अ)पनुत्ति- -त्तये अप ३१,  
 ६, ४.  
 पापा(प-अ)भिज्ञा- -ज्ञया वृदे  
 ६, ३७.  
 √पापाय>पापायित- -ताः वीश्री  
 १८, २६ : २०.  
 पापा(प-अ)ह<sup>०</sup>- -हम् भागृ १, १२ :  
 १५; -हे भागृ १, १२ : १४.  
 पापा(प-अ)हि<sup>०</sup>- -हेः माशि १५,  
 ६; पाशि २५; नाशि २, ८, १०.  
 पा(प-क>)पिका- -काः अप १,  
 ३२, ११.  
 पापिन्- -पिनः वाध १४, १९.  
 पापिष्ट- -ष्टः गौध ४, २८; -ष्टम्  
 कप्र २, ७, ८; १०, १०.  
 पापीयस- -यः वाधूश्री ३, ४६ :  
 ४; निस् ८, ७ : २८; -यसः

शंघ २२९; गौध १३, २५;  
 -यसा आपश्री ६, १८, २; वैश्री  
 १५, २६ : ७; हिश्री ६, ६, १७;  
 १०, ४; २३; -यसे वीश्री १६,  
 ११ : ५; वाध २, ४३; वीध १,  
 ५, ८१; -यान् आपश्री २, १७,  
 ५३; ५, ३, ७४; वीश्री.  
 पापीयसी- -सी वीश्री १८,  
 २६ : १८.  
 पापीयो-मन्या- -न्यायै वाधूश्री  
 ४, १०१ : १०.  
 पापी(य>)या- -याम् वीश्री १८,  
 ४८ : ११.  
 पापति- प्रमृ. √पत् (गतौ) द्र.  
 ?पापनयत् अप ३७, १, ५.  
 ?पापस्वप्नोपभुक्तैः<sup>०</sup> वैश्री २१, २ :  
 ६.  
 ?पापःस्वप्नात्<sup>०</sup> काश्री २५, ११, २१.  
 ?पापीन्<sup>०</sup>- आश्रितृ ३, ११, १ : १०.  
 पाप्मन्<sup>०</sup>- पाठ ४, १५१; -फ<sup>०</sup>प्मन्  
 वीश्री २, ५ : २३; २४<sup>३</sup>; २५;  
 आश्रितृ; -फ<sup>०</sup>प्मनः आश्री २, २,  
 ३; ९, ७, ३५; शाश्री; वीश्री  
 २४, ३० : ९१; माश्री १, ६,  
 १, ३; -प्मना आश्री ११,  
 ५, १; आपश्री; -प्मने वीध ३,  
 ४, ४१; -फ<sup>०</sup>प्मा काश्री २, १, २२;  
 वीश्री २, ५ : ४; १३; २९, ८ :  
 १२<sup>३</sup>; वाधूश्री ३, २६ : ५; ४,  
 ५९ : ६; ९; ६० : १०; आगृ  
 १, २४, ३१<sup>३</sup>; पागृ; -फ<sup>०</sup>प्मानः  
 शाश्री १५, १९, १; आश्रितृ  
 २, ४, ५ : १५; -फ<sup>०</sup>प्मानम्

a) कस. । b) विप. । वस. । c) वैप १ द्र. । d) पस. । e) परस्परं पाभे. । f) उप.  
 = अहन्- । g) पाठः? पापस्वप्नाद् अपभुक्तयात् इति द्विपदः शोधः (तु. वैप १, १९९९ p, ?अभूत्याः [वैप १  
 परि.] टि. च) । h) पाठः? पाप-स्वप्न- > -भात् इति शोधः (तु. वैप १, १९९९ p) । i) पाठः? पापिनः  
 इति वा पापान् इति वा शोधः संभाव्यते । j) पाप्मानः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सपा. माश्री.) ।  
 k) सकृत् पाप्मा<>पाप्मानम् इति पाभे. ।

आश्रौ २,३,१६; २३; ८, १३,  
१४<sup>३</sup>; शाश्रौ-१, ५, ९××; काश्रौ  
४, १५, ४; ५; १५, ७, ६<sup>३</sup>;  
आपश्रौ; आपमं १,४,११<sup>७</sup>; हिण्  
१,१९,७<sup>७</sup>; कौस् ९२,१९<sup>३</sup>.  
पाप्मन्-गृहीत- -तः वाच ५, ८<sup>३</sup>;  
-तस्य हिश्रौ २२,५,१५.  
पाप्मन्-देवताक<sup>०</sup>- -कम् अश्रद्ध, २६<sup>६</sup>.  
पाप्मन्-न्य<sup>०</sup>- -न्यम् अश्रद्ध ४,३२.  
पाप्मन्-हन्- -हन्ः अश्रद्ध ३,३१; -हा  
अप ३२,१,६<sup>३</sup>; अशां २३, १;  
अश्रद्ध २.  
पाप्मन्हा-नाण- -णस्य अश्रद्ध २.  
पाप्मन्हा-देवता-> -व्य- -त्यम्  
अश्रद्ध ३,३१.

!पाप्मा...स्य चाश्रद्ध ८:१.

!पाप्म<sup>०</sup>- (> पाप्म-र- पा.) पाग ४,  
३,८०.

पाप्मन्<sup>०</sup>- (> प- पा.) पाग ५, ३,  
१००.

पाप्माली<sup>१</sup> (> ली/कृ पा.)

पाप्मी<sup>१</sup> (> स्पी/कृ पा.) पाग १,  
४,६१.

पायन- प्रभृ. ✓पा (पाने) द्र.

पायस्- पयस्- द्र.

१पायु- ✓पा (रक्षणे) द्र.

२पायु<sup>०</sup>- पाठ १, १; -<sup>१</sup>युः वौश्रौ  
४, ६: ५१; भाश्रौ ७,१४, ७;  
वैश्रौ; -युम् काश्रौ ६, ६, ३;  
वौश्रौ ४, ६: ५२; भाश्रौ; -योः  
वौध १, ५, ७२; -यौ शुश्रद्ध ४,

२०९.  
पायू (यु-उ)पस्य- -स्थम् विध ९६,  
९५.

३पायु<sup>०</sup>- -युः ऋश्रद्ध २, ६, ७५; १०, ८७;  
शुश्रद्ध; -युम् वृद्धे ५, १२७.

पाय्य- पा, पावा ३, १, १२९.

✓पाय् पाधा. चुरा. उभ. कर्मसमाप्तौ.

पाय<sup>०</sup>- पाग २, ४, ३१<sup>१</sup>; -रम् आश्रौ  
५, ३, १४<sup>३</sup>; शाश्रौ २, ११, ४<sup>३</sup>;  
आपश्रौ; या २, २४<sup>३</sup>; ६, २०<sup>३</sup>;  
९, १८; १३, १३; -रात् आपश्रौ  
१०, १९, १०; माश्रौ २, १, ३,  
१६; १७; हिश्रौ १०, ३, १६;  
-राय<sup>१</sup> काण् ४, २०; गौध २६,  
१२; -रे आपश्रौ ९, १७, ६;  
१०, १९, ११××; वौश्रौ; पा २,  
१, १९.

पाय-ग- पा ३, २, ४८; -गः कप्र  
१, १, ८; शोध २००; विध ८३,  
६; ८; -गाः अप १३, ५, १;  
गौध २८, ५०.

!पाय<sup>०</sup>- -दाय गौध २६, १२<sup>३</sup>.

पाय-शब्द- -वृद्धे ऋप्रा ४, ४५.

पाय(र-अ)वार-> -र-घाति(न->)

नी- -नीम् या २, २४.

पायावारीण-, पारीण- पावा ४,  
२, ९३.

पायि-वडवा- पा ६, २, ४२.

पायि- -ये ऋप्रा ७, ५१<sup>३</sup>.

पायक- (> क्की- पा.) पाग ४, १,  
४१.

पायकि- (> क्कीय- पा.) पाग ४,  
२, १३८.

पायकुलीन-, पायक्य- पर- द्र.

पायजू- पाठ १, १३६.

पायजायिक-, पायिन्- पर- द्र.

पायण- ✓पृ, पृ-द्र.

पायणि<sup>०</sup>- (> णायन- पा.) पाग  
२, ४, ६१.

पायत्रिक-, १-२ पायदारिक- प्रभृ.  
पर- द्र.

पाय्य-, पयत्- प्रभृ. ✓पृ, पृ-द्र.

पाययुगीन-, पारलौकिक- पर- द्र.

१पायशव- १परशु- द्र.

२पायशव- २परशु- द्र.

पायशवायन-, शव्यय- १परशु- द्र.

पायश्वधिक- -परश्वध- द्र.

पायस्कर- ऋत ४, ५, १०; पा ६, १,  
१५७; -रात् हिश्रौ १७, २,  
६२<sup>३</sup>; -राय या १४, ३७<sup>०</sup>.

पायस्त्र-, श्लेषय-, पयस्कुलीन-  
पर- द्र.

पारायण<sup>०</sup>- -णम् वौध ४, ५, २९;  
चव्यू १: १५; ऋप्रा १५, १;

-णस्य आपध १, ११, ७; हिध  
१, ३, ६४; -णे ऋप्रा १५, ३३;  
-णैः हिध १, ७, ३४<sup>०</sup>.

पारायण-व्रत- -तानि वैश्र २, ९: १.

पारायणव्रत-वन्ध-विसर्ग<sup>१</sup>-

-मै वैश्र ६, ११: १.

पारायण-समाप्ति- -सौ आम्रिण् १,  
२, २: ४७; वौध ३, ९: १६;

a) पाप्म. पृ १५६६ k द्र. । b) पाप्मे. वैप १ रोदम् शौ ८, ६, २६ टि. द्र. । c) विप. । वस. ।

d) पाप्मादे<sup>०</sup> इति पाठः? यनि. शोधः (तु. प.) । e) विप. । यत् प्र. उरं. (पा ४, ३, १२१) । पाप्मत्य<sup>०</sup>

इति पाठः? यनि. शोधः । f) ?श्नास्तौत् > श्नास्तौत् इति द्र. । g) पांम- इति पाका. । h) वैप १

द्र. । i) तु. पागम. । j) विस्तारविध्वंसमाधुयैषु कण्विलापे च वृत्तिः इति पागम. । k) = ऋवि-विशेष- ।

व्यु. ? । l) = देवता- । m) व्यप. । व्यु. ? । n) = देश-विशेष- । o) तु. राज. प्रभृ. ।

= आचार्य-विशेष- । p) साप. > नाप. ([अविच्छेदेन] वेदाध्ययन- ) । व्यु. ? < पाय- इति शक. प्रभृ. ।

g) पाप्मे. पृ १४७ k द्र. । r) पस. > दस. ।

भा० ३, ११ : १४; हि० २, २०;  
१३.

पारायणिक- पा ५, १, ७२.

पारावत्<sup>a</sup>- फि ७१: -तम् आमि०  
२, ३, ५ : २०; -तान्<sup>b</sup> शुभ्रा  
५, २२; ३७; -तेभ्यः<sup>c</sup> शांश्रौ  
१२, १६, ४.

पारावत्-(हन् >)ती<sup>a</sup>- शीम् या  
२, २४<sup>क</sup>क.

पाराशर-, शरिन्- परा √शृ द्र.

पाराशरीय- १पराशर-द्र.

पाराशर्य- परा √शृ, शृ द्र.

१, २पारिक्षित-, तीय- परि √क्षि  
(निवासे) द्र.

पारिख-, खेय परि √खन् द्र.

पारिणह्य- परि √णह् द्र.

पारिणय- परि √णी द्र.

?पारिधापयन्त<sup>d</sup>- न्ताः हिश्रौ २१,  
३, १२<sup>e</sup>.

पारिधेय- २परिधि-द्र.

पारिपन्थिक- परि-पन्थ-द्र.

पारिप्लव- परि √प्लु द्र.

पारिभद्रक<sup>f</sup>- > -का(क-अ)म्लिका-  
मोचक-शात्मली-शण-ज-जम्  
विध ६१, ५.

पारिभाषिक- परि √भाष् द्र.

पारिमाण्डल्य- परि-मण्डल-द्र.

पारिमुखिक-, मुख्य- परि-मुख-द्र.

पारियात्र<sup>g</sup>- त्रम् वौध १, १, २५;  
-त्रात् वाध १, ८; शोध ७.

पारियात्रक- -कम् शोध ११६;  
१०<sup>h</sup>.

पारिल- परिल- द्र.

पारिवृद्ध- परि √वृह् द्र.

पारिवाजक- परि √वज् द्र.

पारिशाल्य- परि-शाल-द्र.

पारिशील्य- परि-शील-द्र.

?पारिपथोयेन वाधुश्रौ ४, ७५ : १.

पारिपद-, दक- प्रसृ. परि √पद् द्र.

पारिसारक- परि √स्र द्र.

पारिसीर्य- परि-सीर-द्र.

पारिसैन्धव- परि-सिन्धु-द्र.

पारु- पाठवृ ४, १०१.

पारुच्छेप-, पि-, पी- परुच्छेप-द्र.

पारेवत- फि ५७.

पारोचर्य- परस्<sup>i</sup>-द्र.

पार्जन्य- पर्जन्य-द्र.

१पार्ण- १पर्ण-द्र.

२पार्ण- २पर्ण-द्र.

पार्णकायन- पर्णक-द्र.

पार्णजङ्घ<sup>d</sup>- ङ्घाः वौश्रौप्र ३१ :  
१.

?पार्णदारुणी<sup>i</sup> कप्र ३, १०, १.

पार्णवल्क-, ल्क्य- २पर्णवल्क-द्र.

पार्णगारि<sup>d</sup>- रिः वौश्रौप्र ४७ : २.

१पार्थ<sup>j</sup>- > र्थिन्- र्थी वौश्रौ १८,  
४९ : ११.

२पार्थ- पृथा-द्र.

३-४ पार्थ- २पृथि-द्र.

५ पार्थ- २पृथु-द्र.

पार्थव- √पृथ् द्र.

?पार्थिका- का निस् २, १ : ३१.

१पार्थिव<sup>k</sup>- न्ताः वौश्रौप्र १० : ४.

२पार्थिव- पृथिवी-द्र.

पार्थुरश्म- √पृथ् > १पृथु-द्र.

पार्द<sup>k</sup>- (> र्द-वत्- पा.) पाग ४, २,  
८६.

पार्थक<sup>d</sup>- काः वौश्रौप्र ४३ : १.

पार्थासिक- पर्या (रि √आ)प् द्र.

पार्थुल्लखल्य- पर्थु(रि-उ)ल्लखल-द्र.

पार्थोष्ठ- पर्या(रि-ओ)ष्ठ-द्र.

पार्व<sup>l</sup>- र्वम् अप ४८, ७५<sup>क</sup>.

१पार्वत- १पर्वत-द्र.

२पार्वत(>)ती- २पर्वत-द्र.

पार्वतायन-, पार्वति-, ३पार्वत(>)  
ती- ३पर्वत-द्र.

पार्श्व- २पृश्नि-द्र.

पार्श्व- १पृश्नु-द्र.

पार्पत- √पृष् द्र.

पार्पद-, दक-, दिक- पर्पद्-द्र.

पार्पदंश- पृपदंश-द्र.

पार्पदश्व- √पृष् द्र.

१पार्पिक<sup>d</sup>- काः वौश्रौप्र ३ : ३.

पार्पिका- (> २पार्पिक-). पृ. १५२८  
f द्र.

पार्पिक्य- पर्पिक-द्र.

१पार्ष्णि, पर्ष्णि<sup>m</sup>- पाठ ४, ५२; पागवा

५, २, ९७; -र्णिः शांश्रौ १, ४, २;

-र्णिम् भा० १, २५ : १७;

-र्णिथै वौश्रौ २४, २४ : १२;

हिश्रौ १, ६, ९४; -र्ष्णी वैश्रौ

१३, १७ : ९; वैताश्रौ ३७, १९;

अत्र १०, २<sup>क</sup>; -र्ष्णीः द्राश्रौ

३, १, १०; लाश्रौ १, ९, ११;

-र्ष्णीम् आश्रौ १, १, २३; ४,

४, २; -र्ष्ण्या आपश्रौ ४, १५,

a) वैप १ द्र.। b) वैप १, २००२ i द्र.। c) वैप १, २००२ j द्र.। d) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ?। e) प्यन्त्यः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. पा <> वा इति वावि. विधया सपा. आपश्रौ २४, ९, ९ वारिधापयन्ताः इति, आश्रौ १२, १४, ५ वारिधापयन्तानाम् इति च पाभे.)। f) = वृक्ष-विशेष-। व्यु. ?। 'भाद्र' इति Jolly। g) = पर्वत-विशेष-। विन्ध्यपर्वत- इति MW.। व्यु. ? <परियात्रा- इति शक.। h) परि<sup>o</sup> इति पाठः ? यनि. शोधः [तु. अप २१९, ५७, ५८]। i) पाठः ? प्राणदारुणि इति अस्तु. पाठः। j) = एकाह-विशेष-। व्यु. ?। k) तु-पागम.। l) = उदक-। व्यु. ?। m) वैप १, २००३ a द्र.।



३; ६, १८, २१; भाश्रौ; -ण्य्याः  
 आपश्रौ २, २, ७; भाश्रौ २, २, ८;  
 -ण्य्याः आपश्रौ १५, १५, १;  
 भाश्रौ ११, ५, २१; हिश्रौ २४,  
 ६, १२; विध ९६, ६१.  
 पार्ष्णि-ह(त)ता- -ता भाशि ४,  
 ९; नाशि २, ८, १७.  
 पार्ष्णी-ल- पा ५, २, ९७.  
 पार्ष्णी-सूक्त- -क्तम् अत्र १०, २.  
 २पार्ष्णि<sup>a</sup> - र्णिणः पाश्रु २, १७, १५.  
 √पाल<sup>b</sup> पाधा: चुरा. पर. रक्षणे.  
 १पाल- √पल् द्र.  
 २-३पाल- √पा (रक्षणे) द्र.  
 ४पाल<sup>c</sup> - (>पालेय- पा.) पाग ४,  
 २, ८०.  
 पालक- √पा (रक्षणे) द्र.  
 पालद- पलदी- द्र.  
 पालन-, लनी-, पालयिन्- √पा  
 (रक्षणे) द्र.  
 पालाकल<sup>d</sup> - लस्य आपश्रौ १८, १०,  
 २५; हिश्रौ १३, ४, ११०.  
 पालाकली- लीम् आपश्रौ २०,  
 १०, २१<sup>e</sup>.  
 पालाग(ल)ली<sup>f</sup> - ली काश्रौ २०,  
 १, १२; -लीम् काश्रौ १६, ४,  
 ४; काश्रौ २०, ८, २५<sup>g</sup>.  
 पालाश- प्रस्य. पलाश- द्र.  
 √पालि √पा(रक्षणे) द्र.  
 पालि- पाउभो २, १, १६८.  
 पालिज्ञायनिक<sup>h</sup> - -काः आपश्रौ  
 २१, २३, ५; हिश्रौ १६, ८, ८<sup>h</sup>.

पालित्य- २पलित- द्र.  
 पाली- √पा (रक्षणे) द्र.  
 पाल्लक- पल्लि- द्र.  
 पाल्वल- पल्वल- द्र.  
 १पावक<sup>i</sup> - -का: वौश्रौप्र ४३:१.  
 २पावक- प्रस्य. √पू द्र.  
 पावा- (>पावेय-) १पाठा- टि. द्र.  
 पावित्रायण- √पू द्र.  
 पाविन्द्रायन- पविन्द्र- द्र.  
 पावीरव- पवि- द्र.  
 १पाश- √पश (वन्धने) द्र.  
 २पाश<sup>j</sup> - (>पाशिल- पा.) पाग ४,  
 २, ८०.  
 पाशि, शी<sup>k</sup> - शीम् कौसू ८३, ३.  
 पाशि-सिकतो(ता-ऊ)षो(प-उ)दुम्बर-  
 शङ्ख-शालक-सर्वसुरभि-शमी-  
 चूर्ण- -र्णानि कौसू ८५, १९.  
 पाशुक-, श्युपत- प्रस्य. पशु- द्र.  
 पाश्चात्य- पश्चात् द्र.  
 पाश्य- √पश (वन्धने) द्र.  
 पापण्ड- -ण्डा: अप ६४, ४, ९.  
 पापण्ड-मूक-वधि(र<)रा<sup>l</sup> - रा  
 वैश्र ५, ९, ४; -राम वैश्र ५, ९;  
 १३.  
 पापाण<sup>m</sup> - पाउभो २, २, १२८; -णा:  
 अप ७१, ४, ४; -णेन विध ५,  
 ६३.  
 पापाण-शायिन्- -यिनः वैश्र १,  
 ८, १.  
 पापिक- पपिक- द्र.  
 √पास्, पासति अप ४८, १४<sup>n</sup>.

√पि पाधा. तुदा. पर. गतौ.  
 √पि, पी(=√प्याय, √प्यै)पयते या  
 ११, ४२<sup>o</sup>.  
 पीपीहि आपश्रौ १५, १०, १३<sup>o</sup>;  
 वौश्रौ ९, १०: २६<sup>o</sup>; २७<sup>o</sup>;  
 २८<sup>o</sup>; भाश्रौ ११, १०,  
 १४<sup>o</sup>; वैश्रौ १३, १३: १<sup>o</sup>;  
 हिश्रौ २४, ४, १०<sup>o</sup>; पिपीहि  
 काश्रौसे ३६: १६<sup>o</sup>.  
 पीपाय ऋपा ४, ६३.  
 पीपयति वौश्रौ ९, १०: ३०.  
 पिपिवस्-> पीपियुपी- शीम्  
 आश्रौ ४, ७, ४, ५, १२, १५.  
 पीपिन- पा ६, १, २८; -नी विध  
 १, २४.  
 पीनी<sup>p</sup> - पागम ५८.  
 पीनो(न-ऊ)स्जवनस्थ(ल<)  
 ला<sup>q</sup> - लाम् विध १, २३.  
 पीपिवस्- -वासंम् आश्रौ २, ८, ३;  
 वौश्रौ २, २१: १२; १३, ३६:  
 ९; वैश्रौ १, १७: १२; तैप्रा  
 १६, १३.  
 पीपिया(न<)ना<sup>r</sup> - ना या २,  
 २७<sup>q</sup>.  
 पीवन्<sup>s</sup> - पाउ ४, ११५; -पीवा  
 आपश्रौ १०, १४, १०; २९, ६<sup>r</sup>;  
 २१, १, ९; वैश्रौ १२, २०:  
 १६<sup>r</sup>; हिश्रौ ७, ३, २१<sup>r</sup>; १६,  
 १, ७; -श्वान्<sup>t</sup> वौश्रौ २१, १२:  
 ३०<sup>r</sup>; -श्वानम् भाश्रौ ७, ९,  
 ७; माश्रौ १, ८, २, ३०; २, १, ४,

(a) व्यप. । व्यु. ? । (b) पावा ७, ३, ३७ परामृष्टः द्र. । (c) भल्लपाल- इति [पक्षे] भारडा. प्रस्य. ।  
 (d) =पालागल- । (e) सपा. पालाक<>पालाग<sup>o</sup> इति पाभे. । (f) वैप २, ३खं. द्र. । (g) =आचार्य-  
 विशेष- । व्यु. ? । (h) कान् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु सपा. आपश्रौ.) । (i) =ऋषि-विशेष- । व्यु. ? ।  
 (j) वाश- इति पाका. । (k) अर्थः व्यु. ? । =पापाण- इति M.W. । (l) द्रस. > मलो. कस. पू. असामाना-  
 धिकरणेऽपि पुंवद्भावः उसं. (पा. ६, ३, ३४) । (m) =अइमन्- । व्यु. ? । (n) पाभे. वैप १, २००३ V. द्र. ।  
 (o) =सातहानां स्नेहपान-प्रकार- । (p) विप- । वस.>द्रस. । (q) वैप १ द्र. । (r) सपा. पीवा<>पीवान्  
 इति पाभे. । (s) पीनवान् इति संस्कृतुः टि., पीवस्-> यनि. इति P.W. ।  
 वैप ४-नु-१५

३३; वृदे ७, २५.  
 पीवर<sup>१</sup>- पाठ ३, १; -रः वौघ १,  
 ५, ८६.  
 पीवरी- -री आसिण् २; ३, ५:  
 २५; पावा ६, ४, ६६; -रीम्  
 पाण् १, १६, २१<sup>३</sup>; वाघ २, ३४;  
 ३५.

✓पिञ् ✓पिश् द्र.  
 ✓पिस् पाघा. चुरा. उंम. भाषायाम्.  
 पिक<sup>२</sup>- पाठमो २, २, १५.  
 पिङ्गलाणी<sup>३</sup>- ण्याम् भाण् ३, १३:  
 १५; -ण्यै भाण् ३, १३:  
 १४<sup>२</sup>.

पिङ्गल्य<sup>४</sup>- इत्यान् वौश्रौ २४, २१:  
 ६.

रपिङ्ग<sup>५</sup>- पाठमो २, २, ५७; पाग २, २,  
 ३८, ५, २, ९७; -ङ्गः अत्रा ३,  
 ४, ११<sup>६</sup>.

१पिङ्गलला<sup>७</sup>- पाठवृ १, १०९;  
 पा ५, २, ९७; पाग २, २, ३८<sup>१</sup>;  
 ४, १, ४१; ६, २, ८५; -लः  
 आपश्चौ ६, ३१, ५; आण् ४, ६,  
 १५; अप्; -ल्म् आपश्चौ ९, १९,  
 १५; १४, ७, १३; माश्रौ; शंघ  
 ११६: १९<sup>६</sup>; -लया वौश्रौ १६,  
 २४: १४; १७, १: ३; -ला  
 काश्रौ ७, ६, १२; आपश्चौ २२,  
 १५, ३; वौश्रौ ६, १०: ३;  
 -लाम् वौघ २, १, ५७; -लालय  
 कौण् ४, ३, २; शाण् ४, १६, २;  
 अप्-६६, ३, २; गौघ २६, १२.

पिङ्गली- पा ४, १, ४१.  
 पिङ्गल-खलति-विक्रिध-शुक्ल-  
 -कृत्य काश्रौ २०, ८, १६.  
 पिङ्गल-नेत्र<sup>८</sup>- -त्राय अप् ३६,  
 ९, १६<sup>१</sup>.  
 पिङ्गला(ल-अ)भाव- -वे काश्रौ  
 ७, ६, १२.

पिङ्गा(ङ्ग-अ)क्ष<sup>९</sup>- -क्षः शाश्रौ १६,  
 १८, १८; वौश्रौ १५, ३७: १;  
 १८, १: ६; भाण् २, ३२: १३<sup>१</sup>;  
 चव्यू ४: १५; -क्षम् आपश्चौ  
 २०, २२, ६; हिश्रौ १४, ५, ४;  
 -क्षेण वौश्रौ १७, ४५: १.

पिङ्गाक्षी- -क्षी भाश्रौ १०,  
 १४, १९; १७, १२; हिश्रौ ७,  
 २, १६; १७, ६, २३; -क्षीम्  
 वैश्रौ १२, १६: ९.

पिङ्गाक्षी-पुत्र- > पैङ्गा-  
 चीपुत्र- (> षुत्रीय- पावा.)  
 पावाग ४, २, २८.

पिङ्गाक्ष-जटिल-गांभव<sup>१०</sup>- -वस्य  
 वाश्रौ ३, ४, ५, १७.

२पिङ्गा<sup>११</sup>- > १पैङ्गा<sup>१२</sup>- > \*क<sup>१</sup>-  
 -कम् जैश्रौ २२: २२.

पैङ्ग-शाम्बन्वै(व्य-ऐ)तरेय- -या:  
 कौण् २, ५, ३.

पैङ्गायनि- > णि-ब्राह्मण- -णम्  
 आपश्चौ ५, १४, १८; २९, ४.

पैङ्गिन्<sup>१३</sup>- -ङ्गिनः निसू ४, ७:  
 १; ९.

पैङ्ग्य<sup>१४</sup>- -ङ्गयः वाघ्श्रौ ३, ४१:

२६; अप् ४२, ४, ४७<sup>१</sup>; -ङ्ग्यम्  
 कौण् २, ५, ३; शाश्रौ ४, २, १२;  
 ११, १४, १९××; आण्; -ङ्गयस्य  
 शाश्रौ ११, ११, ५.  
 पैङ्ग्य-ब्राह्मण- -णम् हिश्रौ ६,  
 ५, ३९.

३पिङ्ग<sup>१५</sup>- > २पैङ्ग- -ङ्गे कौसू १४१,  
 ३९.

पिङ्गर<sup>१६</sup>- (> पैङ्गरायण- पा.) पाग  
 ४, १, ९९.

१पिङ्गल- १पिङ्ग- द्र.

२पिङ्गल<sup>१</sup>- पाग. ४, १, ९९; २, १११;  
 -लाव् उनिसू ८: ३०.

पैङ्गलायन- पा ४, १, ९९; -नाः  
 वौश्रौप्र ३: ४.

पैङ्गलायनि<sup>१७</sup>- पा, पाग २, ४, ५९.

पैङ्गलायनि-ब्राह्मण- -णम् वौश्रौ  
 २, ७: २५; २६.

पैङ्गल्य- पा ४, १, १०५.

पैङ्गल- पा ४, २, १११.

पिङ्गलक<sup>१८</sup>- पा, पाग २, ४, ६९.

पिङ्गलक-कृष्णपिङ्गल- पा, पाग २,  
 ४, ६९<sup>१</sup>.

३पिङ्ग( ल > )ला<sup>१</sup>- -लया वैघ १,  
 ११, २-४.

४पिङ्ग( ल > )ला<sup>२</sup>- -लाम् हिण्.  
 १, १७, ३.

पिङ्गाक्षि- -क्षयः वौश्रौप्र ४१: ७.

पिचण्ड<sup>१९</sup>- पाठना १, १२०; पाग  
 ५, २, ६४; ११७.

पिचण्ड-क- पा ५, २, ६४.

a) वैप १ द्र. । b) पाभे. वैप १, २०२१ k द्र. । c) अर्थः व्यु. च? । d) =स्यूल-काष्ठ- इति  
 भवस्तामी । व्यु. ? । e) वैप १, २००४ n द्र. । f) पिङ्गुल- इति [पक्षे] भारडा., पासि. । g) नाप. ।  
 अर्थः ? । h) विप. । वस. । i) गांभव- इत्यस्यार्थः ? । j) व्यप. । व्यु. ? । k) अपत्ये तस्येदमित्यर्थे च  
 अन् प्र. । l) स्तार्थे कः प्र. । m) नाप. । णिनिः प्र. (पा ४, ३, १०५) । < पैङ्ग्य- इति MW. । n) विप.,  
 व्यप. । अपत्यार्थे यन् प्र., तस्येदमित्यर्थे च व्यः प्र. उंसं. (४, ३, १२९) । o) =मृपिकं- इति MW. । p) तु-  
 पागम. । q) =२पिङ्गल- । । r) तु. पाका. । पैङ्गलौदायनि- इति भारडा. प्रवृ. । s) पिङ्गलक- इति  
 शाकटायनः । t) =नादी-विशेष- । व्यु. ? । u) =उल्लूक- इति भाष्यम् । । v) वैप ३ द्र. ।

पिचण्ड-वत्-, पिचण्डिक-, पिच-  
ण्डिन्-, पिचण्डिल- पा ५, २,  
११७;  
पिचु- पाठभो २,१,२२.  
पिचुक<sup>१०</sup>- (>कीय- पा.) पाग  
४,२,९०.  
पिचुमन्द<sup>१०</sup>- > ंन्द-पत्र-त्राणि  
पाग ३,१०,२४.  
पिचू<sup>१०</sup>, च्छ पाधा. चुरा. पर.  
कुटने.  
पिच्छ<sup>१०</sup>- पाठभो २, २, ८४; पाग ५,  
२,१००.  
पिच्छिल- पा ५, २, १००; -लम्  
विध ६१, ११.  
पिच्छोरा, ला<sup>१०</sup>- -रा: शांश्रौ १७,  
३, १२<sup>१०</sup>; -राम् शांश्रौ १७, ३,  
१३; द्राश्रौ ११, २, ६; ७;  
लाश्रौ ४, २, ५; ६; -ला:<sup>१०</sup>  
आपश्रौ २१, १७, १६; १९, ३;  
हिश्रौ १६, ६, २१.  
पिजवन<sup>१०</sup>- -न: या २, २४<sup>१०</sup>; -नस्य  
या २, २४.  
पैजवन<sup>१०</sup>- -न: गोप १, ९, ११; ऋअ  
२, १०, १३३; साअ २, ११५१;  
या २, २४<sup>१०</sup>; -नस्य शांश्रौ  
१६, ११, १४; ऋअ २, ७, १८;  
वृदे ५, १६२; या २, २४.  
पिजूर<sup>१०</sup>, ला<sup>१०</sup>- (>पैजूरा, ला]यन-  
पा.) पाग ४, १, ११०<sup>१०</sup>.  
पिञ्ज- पाठना ४, ११६.  
पिञ्जोला<sup>१०</sup>- -ला:<sup>१०</sup> वौश्रौ १६, २०:

५; २६, १७: १२; -लाभि:  
वौश्रौ १६, २१: ५; १३; २६,  
१७: ११.  
पिञ्ज पाधा. अदा. आत्म. वरौ,  
संपर्चने, अयवे, अव्यक्ते शब्दे;  
चुरा. पर. हिंसावलादाननिकेत-  
नेषु, उभ. भाषार्थे च, पिञ्जयति  
या ३, १८.  
पिञ्जर- पाठभो २, ३, ३८.  
पिञ्जल<sup>१०</sup>- पा, पाग २, ४, ६९<sup>१०</sup>.  
पिञ्जुल- पाठना ४, ९६.  
पिञ्जूर<sup>१०</sup>- (>पैञ्जूरायण-).  
१पिञ्जूल- पाठ ४, ९०.  
पिञ्जूलक- पिञ्जल- टि. द्र.  
२पिञ्जू ( ल > ) ली<sup>१०</sup>- ली: कौसू  
७२, ११; ८२, ९; ८८, १४<sup>१०</sup>;  
-लीनाम् कप्र २, ८, ५; -लीभि:  
कौसू २७, ७; ३२, ३××; -लीम्  
कप्र १, २, १२; -ल्य: द्राग २,  
३, १७; -ल्या: कप्र १, २, ११.  
पिञ्जुल्या (ली-आ) दि- दि कप्र २,  
८, १८.  
पिट पाधा. भ्वा. पर. शब्दसंघातयोः.  
पिट<sup>१०</sup>- (>१पिट-क-पा.) पाग ५,  
४, २९.  
२पिटक- पाठभो २, २, १०; पाग  
२, ४, ३१<sup>१०</sup>; ४, २, ४९<sup>१०</sup>; ४, १५<sup>१०</sup>.  
पैटकि- पा ४, ४, १५.  
पिटक्या- पा ४, २, ४९.  
३पिटक<sup>१०</sup>- (>पैटक-पा.) पाग ४,  
१, ११२.

१पिटाक- पाग ४, २, ४९<sup>१०</sup>; ४, १५<sup>१०</sup>.  
पैटाकि- पा ४, ४, १५.  
पिटाक्या- पा ४, २, ४९.  
२पिटाक<sup>१०</sup>- (>पैटाक-पा.) पाग ४,  
१, ११२.  
पिट पाधा. भ्वा. पर. हिंसासंज्ञे-  
शनयोः.  
पिठर<sup>१०</sup>- (>श्री- पा.) पाठभो २,  
३, ३९; पाग ४, १, ४१<sup>१०</sup>.  
पिठीनस्<sup>१०</sup>- >पैठीनस- -सा: वौश्रौप्र  
४१: ११.  
पैठीनसि- -सि: अप ४, ४, १२; १८,  
१९, १; -सिम् अप ४३, ४, ३७;  
४, ५४.  
पिण्ड पाधा. भ्वा. आत्म., चुरा.  
पर. संघाते, पिण्डयेत् शैशि  
२०७.  
१पिण्ड<sup>१०</sup>- पाग ४, १, ३५; ४१; -ण्ड:  
वाश्रौ १, २, ३, २२; पाग ३, १०,  
५३; गोप ४, ३, ८<sup>१०</sup>; यौपि २,  
६, ५<sup>१०</sup>; कौसू; -ण्डम् काश्रौ  
१६, २, ३; ११; १४; १७; २३; २४;  
२८; ३, ६; ९; १३; आपश्रौ;  
-ण्डम्-ण्डम् वौश्रौ १०, ४; २;  
-ण्डस्य काश्रौ १६, २, २०; वैग  
५, १३; २५; १४: ५; -ण्डा:  
आपश्रौ ५, ५, १०; वौश्रौ;  
-ण्डान् आश्रौ २, ६, १५; शांश्रौ;  
-ण्डानाम् आश्रौ २, ७, १२;  
वौश्रौ; -ण्डानि अप १८, २, ४;  
-ण्डे काश्रौ १६, ३, १५; आपश्रौ;

a) अर्थ: व्यु. च ? । b) = वृक्ष-विशेष- इति शक. MW. । c) = निम्ब-वृक्ष- इति भाष्यम्,  
अभा. प्रसू. च । d) तु. BPG. । e) तु. पाका. । पिच्छा- इति भाण्डा. प्रसू. । f) = वीणा-विशेष- । व्यु. ? ।  
g) सप्र. पिच्छोरा: <>पिच्छोला: <> पिच्छोला: इति पाभे. । h) वैप १ द्र. । i) तु. पासि. ।  
j) व्यप. । व्यु. ? । k) पिञ्जूर- इति पाका. । l) तु. पाका. । पिञ्जूलक- इति भाण्डा. पासि. ।  
m) = दर्भ-पिञ्जूल- । n) तु. पागम. । o) = [वंशदत्तादिमय-] भाण्ड- । व्यु. ? । p) = विस्फोट-  
इति पागम. । q) = पिट- । r) = नौ-विशेष- इति वापाभा. । s) = पात्र- । व्यु. ? ।  
t) पाभे. पृ ७८५. d द्र. ।

—ण्डेऽण्डे शांश्रौ ८, २, १३;  
 वैगृ ५, १५:१०; चौघ २, २,  
 १९; —ण्डेन वैगृ ५, १२:३३;  
 —ण्डेभ्यः वाघृश्रौ ४, ७४:१८;  
 —ण्डेषु आपश्रौ २, ७, ५; आपश्रौ;  
 —ण्डैः आगृ ४, ७, ६; शांश्रु;  
 —ण्डौ आपश्रौ १, २४, ५; वौश्रौ  
 २६, ५: ११; वाघृश्रौ.  
 १पिण्डी— पा ४, १, ४१; —ण्डी:  
 आपश्रौ १९, २६, १:६; ९; १२;  
 १७; २७, १४; वौश्रौ; —ण्डीम्  
 माश्रौ ५, २, ६, १७; —ण्डव्यः  
 आश्रौ २, १२, ६; ५, १७, ५.  
 पिण्डी-जड्व<sup>१</sup>— पा, पाग २,  
 ४, ६३.  
 पिण्डी-जूर— पा, पाग २,  
 १, ४८; ६, २, ८१.  
 : पिण्ड-करण— णे पागृ ३, १०, ५०.  
 : पिण्ड-कारिन्— णी वौश्रौ २७, ९:  
 २; वौगृ ४, १, २.  
 : पिण्ड-कृत— ताः शैशि ३२४.  
 : पिण्ड-नोत्र(त्र-ऋ)पिं-संबन्ध<sup>१</sup>—  
 : न्वाः गौघ २८, २१; —ण्डेभ्यः  
 : गौघ १८, ६.  
 : पिण्ड-चतुष्टय— न्यम् विघ २१, १५.  
 : पिण्ड-तोय-प्रदायिन्— यिनः विघ  
 : २०, ३२.  
 : पिण्ड-त्रय— न्यम् कप्र २, ७, ३;  
 : —ये विघ २१, १७.  
 : पिण्ड-द— दः शंघ २९०; —डेन  
 : शंघ २८२.  
 पिण्ड-दान— नम् वौश्रौ २४, ३०:  
 ५; ३२: १××; वौगृ: —नस्य  
 कप्र ३, १०, ९; —नाय या ३, ४;  
 ५; —ने कप्र १, ४, ८; ३, ५, १५.

पिण्डदान-प्रवृत्ति— -ति हिश्रौ  
 २, ७, ३५.  
 पिण्डदान-मन्त्र— मन्त्रैः वौश्रौ  
 १६, १५:१.  
 पिण्डदान-वत् कप्र ३, २, ७.  
 पिण्डदानो(न-उ)दकक्रिया— न्या  
 शंघ १८८.  
 पिण्ड-दायिन्— यी विघ १५, ४०.  
 पिण्ड-नायक— कम् याशि २, १२.  
 पिण्ड-निधान<sup>१</sup>— नम् माश्रौ १,  
 १, २, २१; वाश्रौ; —नात् आपगृ  
 २२, ८.  
 पिण्ड-निर्वपण— णम् विघ २१, ९;  
 ६७, २३; ७४, ३.  
 पिण्ड-निर्वाप— पः वैगृ ५, १४: १;  
 १५: ८; —पम् वैगृ ७, ४: १०.  
 पिण्ड-निवृत्ति— त्तिः गौघ १४, १२.  
 पिण्ड-प(ति>)ती<sup>१</sup>— पा ४, १, २५.  
 पिण्ड-पाठ— तः ऋप ३६, ८, ४.  
 पिण्ड-पितृ-यज्ञ<sup>१</sup>— ज्ञः आश्रौ २,  
 ६, १; शांश्रौ ४, ३, १; ५, १३;  
 काश्रौ; —ज्ञम् शांश्रौ ३, १०, ६;  
 आपश्रौ; —ज्ञस्य शांश्रौ ३, २, ९;  
 ३, ९; वौश्रौ; —ज्ञात् वौश्रौ २५,  
 ३२:३५; —ज्ञाय वाश्रौ १, २,  
 ३, १; —ज्ञे माश्रौ ८, १९, १३;  
 २०, ६; माश्रौ; —ज्ञेन आपश्रौ  
 १, ७, २; वौश्रौ.  
 पिण्डपितृयज्ञ-कल्प— रूपः द्रागृ  
 ३, ५, ३३; —ल्पेन द्रागृ २, ५, ३.  
 पिण्डपितृयज्ञ-पात्र— त्राणि  
 आपश्रौ १, ७, ५; माश्रौ १, ७,  
 २; १०, ४; हिश्रौ २, ७, ८.  
 पिण्डपितृयज्ञ-मन्त्र— मन्त्रान्  
 वौश्रौ १६, २६: १०; हिश्रौ ९,

३, ५४; १०, ५, ९.  
 पिण्डपितृयज्ञ-वत्— काश्रौ १०,  
 ५, ११; आपश्रौ ८, १६, १३:  
 वौश्रौ.  
 पिण्डपितृयज्ञ-वर्जम्— वाश्रौ १,  
 १, १, ६६.  
 पिण्डपितृयज्ञा(ज्ञ-आ)वृत्<sup>१</sup>—  
 -वृता कौगृ ३, १५, ७; शांश्रु ३,  
 १३, ६; कागृ ६५, ६.  
 पिण्ड-प्रवृत्ति— त्ति द्रागृ ३, ५, २२.  
 पिण्ड-फ(ल>)ला— पा, पावा ४,  
 १, ६४.  
 पिण्ड-मात्र— त्रस्य कप्र ३, १०, ९.  
 पिण्डमात्रो(त्र-उ)पजीवि(न्>)  
 नी— नीम् शंघ ३३४.  
 पिण्ड-मूल— ले गौपि १, ६, ८.  
 पिण्ड-यज्ञ— ज्ञम् कागृ ४४:१७.  
 पिण्ड-वत् काश्रौ १६, ५, ७; १४××:  
 कप्र २, ४, १-५.  
 पिण्ड-व(र्ज>)र्जा— र्जा वप २६,  
 २, १.  
 पिण्ड-वर्धन<sup>१</sup>— नम् वैगृ ३, २२:  
 १४; शंघ २०†.  
 पिण्ड-शब्द-प्रयोग— नाः कागृ ४  
 ४५:७.  
 पिण्ड-शेष— पम् वौघ २, ३, २२;  
 कागृ ४०: १.  
 पिण्डशेषा(प-आ)दि— दि वैगृ  
 ५, १२: २१.  
 पिण्ड-शौच— चयोः शंघ ३६६.  
 पिण्डा(ण्ड-अ)न्वाहार्यक<sup>१</sup>— कम्  
 कप्र २, ६, १.  
 पिण्डा(ण्ड-अ)र्थ— र्थम् द्रागृ ४,  
 ७, २७; वैगृ ४, ७: २; कप्र १,  
 २, ४.

a) व्यप. । वन. । b) विप. । हस. > वस. । c) उप. भावाऽधिकरणे प्र. । d) पूष.  
 = पिण्डदायिन् । e) मलो. कस. > पस. । f) उप. भाप. = इतिकर्तव्यता- (तु. कागृ. भाष्यम्) । g) = कर्म-  
 विशेष- (तु. मदनपारिजातः [३५६]) । उप. करणे कृत. । h) मलो. कस. उप. = आद- ।

पिण्डार्थ-त्व-त्वात् मीसू १०, १, ५१.  
 पिण्डा(एड-आ)वृत्<sup>२</sup>-वृत्ता  
 आम्रिण्ड ३, २, २: १५; ६: ११×५.  
 पिण्डी ✓कृ>, पिण्डीकरोति आम्रिण्ड  
 २, ६, १: ३१; ३, ६, ३: २०.  
 पिण्डो(एड-उ)दक-कम्<sup>२</sup> शंघ  
 ३५०; -का: वौध २, ८, २३०.  
 पिण्डोदक-क्रिया-या आम्रिण्ड  
 ३, १०, ४: २८; ३४; वौध १,  
 ५, ९३.  
 पिण्डित-> पिण्डिता(त-अ)चि<sup>२</sup>-  
 चि: अप-७०<sup>३</sup>, ३, १.  
 पिण्ड्य-ण्ड्यौ आग ४; ३, २३.  
 २पिण्ड<sup>२</sup>-(> पैण्डायन-पा.) पाग  
 ४, १, ९९.  
 ३पिण्ड<sup>३</sup>-(> पिण्डीय-पा.) पाग  
 ५, ३, ११६.  
 पिण्डंश्रीव<sup>२</sup>-वा: वौश्रीप्र ३५: २.  
 पिण्डक, का<sup>२</sup>-पाग ५, १, १२८;  
 -का अप २३, ३, २; -के विध  
 २६, ९२.  
 पैण्डक्य-पा ५, १, १२८.  
 पिण्डल-पाड १, ५४.  
 १पिण्डी-१पिण्ड-द्र.  
 २पिण्डी<sup>२</sup>-(> पैण्ड्य-पा.) पाग ४,  
 १, १५१.  
 पिण्डीतक<sup>१</sup>-पाडमो २, २, ४०; -केन

वैग ३, १४: ५.  
 पिण्ण-पाडना ३, ७.  
 पिण्याक<sup>१</sup>-पाडमो २, २, १४; पाग  
 २, ४, ३१; -कम् आपध २, १८,  
 १; हिध २, ५, ५३; -कस्य अप  
 ६८, २, ४६.  
 पिण्याका(क-आ)च (चि<sup>२</sup>ना<sup>२</sup>) म-तक्रो-  
 दक-सक्तु-क्तनाम् विध ४६,  
 २२.  
 ?पितृ<sup>१</sup> शंघ ११६: ५१.  
 पितृ<sup>२</sup>-तु: माश्री १, ६, ४, २५<sup>२</sup>;  
 वाश्री १, ५, ५, ८<sup>२</sup>; आम्रिण्ड  
 ३, १, ३: २२×५; अप ४८,  
 ८८; निघ २, ७, ५, ३; या ९,  
 २४<sup>२</sup>; -तुम् आश्री २, ५, २;  
 शाश्री; चाअ ४०: १२<sup>२</sup>; या  
 ९, २५; ऋप्रा १६, ३६; -तूनाम्  
 ऋप्रा ८, २९; -न्तो आश्री २,  
 ९, १०<sup>२</sup>; वौश्री; हिश्री १२, ६,  
 ६<sup>२</sup>; कौग ३, ५, १<sup>२</sup>; शाग ३, ८,  
 ४<sup>२</sup>; पाग; जैग १, २४: ५<sup>२</sup>;  
 -त्वे वाग १५, १०<sup>२</sup>.  
 पितृ-भृत्-भृत: ऋप्रा १६, ६३<sup>२</sup>.  
 पितृ-मत्-मत् या ४, २४;  
 -मत: आश्री ४, ७, ४; शाश्री  
 ५, १०, ३१; वौश्री ९, ११: २८;  
 -मान् आश्री २, ५, ६.  
 पितृमती-तीम् या ६,  
 ३६<sup>२</sup>.

पितृ-स्तोम-मे ऋप्रा १६, ५०.  
 ✓पितृय>पितृयत्-यत: ऋप्रा  
 ९, १४<sup>२</sup>.  
 पितृ<sup>२</sup>-पाडमो २, १, १३५; -न्त:  
 आश्री ३, ८, १; शाश्री; -तर:  
 आश्री १, ११, ७<sup>२</sup>; २, ६, १४×५;  
 शाश्री; आम्रिण्ड ३, १, २: ४<sup>२</sup>;  
 ३, १: २३<sup>२</sup>; या ३, ८;  
 ११, १७: १८<sup>२</sup>; १९<sup>२</sup>; १<sup>२</sup>;  
 ६<sup>२</sup>; -न्तर: आश्री २, ७, १; ७,  
 ६<sup>२</sup>×५; शाश्री; हिग २, ११, ११;  
 -तरम् आश्री २, ७, ११; ८,  
 १३, २६; शाश्री; या २, ४<sup>२</sup>; ७,  
 ३१; -न्तरा आश्री २, ९, १४;  
 ८, १०, २; शाश्री १०, १०, ७;  
 -तरि वौश्री ३; १, २: २०<sup>२</sup>;  
 आम्रिण्ड; -न्तरौ आश्री ३, ९, ३;  
 आपश्री; -ता आश्री १, १०,  
 ५<sup>२</sup>; २, २, १३<sup>२</sup>×५; ४, ६,  
 ३<sup>२</sup>; ११, ६<sup>२</sup>; शाश्री; आपमं २,  
 १४, १<sup>२</sup>; ऋया ३, ४; ५<sup>२</sup>; ४,  
 २१<sup>२</sup>; २३; ५, २१; २४; ६,  
 १५<sup>२</sup>; ९, १४; १२, २९<sup>२</sup>; ३२;  
 ३४; १४, २०; पा १, २, ७०; -तु:  
 शाश्री ४, ४, २; १५, १७, १<sup>२</sup>;  
 आपश्री; कौग ३, १, ५, ५<sup>२</sup>; शाग  
 ३, १३, ५<sup>२</sup>; या ३, ५; ६, ६;  
 ९, २९<sup>२</sup>; १४, २०<sup>२</sup>; -न्तृणाम्  
 वौश्री ४, ४: १५; ६, २७:

a) उप. भाष. = इतिकर्तव्यता-। b) समाहारे द्वस.। c) तद्वनि वृत्तिः। पिण्डतर्ककाः इति  
 Hultzsch। d) त्रिप.। वस.। e) व्यप.। व्यु. ?। f) = आशुधजीविसंघविशेष-। व्यु. ?। g) अर्थः  
 व्यु. च ?। = जङ्घोर्वोमांसलो भांगो इति त्रिध. भाष्यम्। h) पृ ५९८ b द.। i) = वृत्त-विशेष-। व्यु. ?।  
 j) = तिल-कल्क-। व्यु. ?। k) पाठः ? यनि. शोधः (तु. यास्मृ [३, ३२२]।) आचाम = ओदन-निःस्नात-।  
 l) पाठः ? मितम् इति शोधः (तु. अपु २१९, २९)। m) वैप १ द.। n) पाभे. वैप १, २००५ m द.।  
 o) पितुः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. ऋ १, १८७, १)। p) पाठः ? पित्रे इति शोधः (तु. तै ४, ६, २, ६)।  
 q) सपा. पितरः <> पितरः [सं३] इति पाभे.। r) सपा. वौपि २, ९, ५; ११, २ प्रेतः इति पाभे.। s) पिता-नः  
 इत्यस्य स्थाने सपा. ऋ ३, २, २ चुनोहितः इति पाभे.। t) पाभे. वैप १, १६८७ a द.। u) वेति <त्वां पृति-  
 (तु. भू [XXVIII]। v) सपा. पितुः <> पितृभ्यः <> प्रपितामहात् इति पाभे.।

४××; वैश्रौ; -ऋभिः आश्रौ<sup>१</sup>  
 २, १९, २२; ५, १९, १; शाश्रौ  
 ३, १६, ४<sup>१</sup>; ७, ५, २२; ८, ४, २<sup>१</sup>;  
 आपश्रौ; -ऋभ्यः आश्रौ २, ३,  
 २१<sup>१</sup>; १९, २२<sup>१</sup>××; शाश्रौ;  
 आपश्रौ २०, १४, १३<sup>१</sup>; माश्रौ  
 २, ३, ७, ३<sup>१</sup>; हिश्रौ १४, ३;  
 १८<sup>१</sup>; आपमं १, ४, ४<sup>१</sup>; कौश्रु  
 ३, १५, ५<sup>१</sup>; आमिश्रु ३, ६, १:३<sup>१</sup>;  
 या १, ४<sup>१</sup>; ७, ९<sup>१</sup>; -ऋषु वाधूश्रौ  
 ३. ६: ५; १७: १२; १८;  
 -ऋणाम आश्रौ १, १०, ८; ३,  
 ६, २७; शाश्रौ; आपश्रौ १५,  
 १०, ७<sup>१</sup>; द्राश्रौ १३, २, ८<sup>१</sup>;  
 लाश्रौ ५, २, ११<sup>१</sup>; आपमं १,  
 ११, ९<sup>१</sup>; कौसू ८९, १<sup>१</sup>; या  
 १०, ५<sup>१</sup>; ११, ३३; -ऋन्  
 आश्रौ २, १९, ७; २२<sup>१</sup>; ५, २०,  
 ६; शाश्रौ; आमिश्रु २, ६, १:  
 १६<sup>१</sup>; या ३, ५; ११, १८; -ऋ  
 आश्रौ १, ३, २३<sup>१</sup>; शाश्रौ १, ६,  
 २; आपश्रौ; या ७, ३१<sup>१</sup>; -ऋ  
 आश्रौ २, ६, १५; ३, ७, ९<sup>१</sup>; ४,  
 ६, ३<sup>१</sup>××; ऋशाश्रौ ५, ९, ६<sup>१</sup>;  
 १८, १, २<sup>१</sup>; काश्रौ; आपश्रौ ५,  
 १६, १<sup>१</sup>; वैश्रौ २, १६: ५४<sup>१</sup>;  
 हिश्रौ ६, ५, ११<sup>१</sup>; -ऋोः पाश्रु  
 ३, ७, २; शेष ३५९.  
 पैतृक, का<sup>१</sup> पा ४, ३, ७९;  
 -ऋ वैश्रौ १, ४: १०;

आमिश्रु २, ६, १: ७<sup>१</sup>; ३,  
 ११, ३: २६; वैश्रु २, २: १२;  
 ५: ८<sup>१</sup>; ५, १५: १२<sup>०</sup>; १९<sup>०</sup>;  
 अप; -काः वैश्रु ४, ४: १७<sup>१</sup>;  
 -के वैश्रु १, ८: १०, १३: ३××;  
 -केण वैश्रु १, ५: ९<sup>१</sup>; २०: ६;  
 वैश्रु २, १३, ५; -केषु आपश्रु  
 २, ४.

पैतृकी- -ऋ्याः आपश्रु  
 ६, ११; वैश्रु ३: २७; हिश्रु २,  
 ४४; -ऋयाम काश्रु २, ६.

पैतृक-ऋत वैश्रु ६, २: ११.

पैतृक-होम- -मम् वैश्रु ६,  
 १९: १४.

पैतृका(क-आ)दि-क- -ऋम्  
 वैश्रु २, १८: १६.

पैत्र- -ऋम् शंघ २५७; -ऋ  
 शंघ ७३.

पैत्री- -ऋणाम् शाश्रौ ८,  
 ७, १६; १४, ५७, ११; -ऋयः  
 शाश्रौ ८, ६, १२.

पैत्र्य- -ऋये विघ ७८, १५<sup>१</sup>.

पितरा-मातृ- -ऋरा पा ६, ३, ३३.

पितरि-शूर- पा, पाग २, १, ४८; ६;  
 २, ८१.

पिता-पुत्र- -ऋाः वैश्रौ २, ९: १९;

-ऋणाम् वैश्रौ १८, ४५:

३१; -ऋो काठश्रौ १५; काश्रु

४०: ११; आपघ; या १, १६;

पा, पाग २, ४, १४<sup>१</sup>.

पितापुत्र-विरोध- -ऋे विघ ५,  
 १२०.

पितापुत्रीय, या- -ऋयः वैश्रौ १८,

३५: ११; -या आपश्रौ ११,

२०: ४; वैश्रौ; -याम् आपश्रौ

११, २०, ३<sup>१</sup>; माश्रौ २, २, ५;

९; ३५: वैश्रौ १४, १७: १३<sup>१</sup>;

वैश्रौ ७: २.

पैतापुत्री(य >)या- -याम्

काश्रौ ८, ९, ११; काठश्रौ

११२<sup>१</sup>.

पैतामह- पा ४, २, ३६; पाग ४,

१, ४१; -ऋह आश्रौ २,

६, २४; आपश्रौ १, ९, १५;

वैश्रौ; -हः काठश्रौ १५; वैश्रौ;

-हम् आपश्रौ २, २१, ७<sup>१</sup>;

वैश्रौ; -हस्य शाश्रौ ४, ४, ३;

वैश्रौ; -ऋहाः आश्रौ २, ६, १४;

काश्रौ; -ऋहाः वैश्रौ २, ९: १७;

३, ११: ९××; हिश्रौ; -ऋहः

काठश्रौ १५; वैश्रौ; -हः

वैश्रौ २८, १०: १२; आमिश्रु;

-हानाम् ऋआमिश्रु ३, १, २:

१६; २, ३: ५; वैश्रु; -हाय

आश्रौ २, ६, १५; ६, १२, ९<sup>१</sup>;

वैश्रौ; माश्रौ २, ५, ४, ११<sup>१</sup>; -हे

कप्र २, ७, २; अप ७१, १६, ५;

विघ ७५, २; ३; -हेन कप्र २,

७, ८; -हेमिः भाश्रु ३, १७: ९;

हेभ्यः आपश्रौ १, ९, ९<sup>१</sup>; वैश्रौ

a) पामे. वैप १, २०१० f द्र.। b) पामे. वैप १, २०११ c द्र.। c) पामे. वैप १ सुखिभ्यः

कौ २, ११७८ टि. द्र.। d) पामे. वैप १, २०१३ h द्र.। e) पामे. पृ १५७३ w द्र.। f) पामे.

वैप १, २०१० m द्र.। g) पामे. वैप २, ३खं. पितृणाम् तैश्च ४, ८, ५ टि. द्र.। h) पामे. वैप १, २०१० e द्र.।

i) पामे. वैप १, २१०२ c द्र.। j) अप्रकरणकत्वात् पाठः ?। k) पामे. वैप १, २०११ m द्र.। l) पामे.

वैप २, ३खं. पित्रे तैश्च १, २, १, २० टि. द्र.। m) विप., नाप.। तत आगताद्यर्थे ङल् प्र.। n) = पितृ-तीर्थ-।

o) = पितृ-श्राद्ध-। p) विप. (कृत्-).। q) तत आगतीयाद्यर्थे ङल् प्र.। r) = (पितृदेवत्व-) नघा-नक्षत्र-।

साऽस्यदेवतीयः यन् प्र. उंसं. (पावा ४, १, ८५)। s) त्रैइति जीसं.। t) वैप १ द्र.। u) तु. पागम.। v) सप्र.

पिता <> पैता इति पामे.। w) तस्येदमीयश् छण् प्र. उंसं. (पा ४, २, १३८)। x) पामे. वैप १, २०१२ f द्र.।

२, ९ : २७; २९; १७, ३७ : ११<sup>३</sup>;  
वाश्रौ ३, २, ७, ४९<sup>३</sup>; आम्रिगु;  
कौसू ७३, ६<sup>३</sup>; -<sup>३</sup>हैः वौश्रौ ६,  
३१ : २१; वौषि २, १२, ४.

पितामही- पा ४, १.

४१; पावा ४, २, ३६; -०हि

आपमं २, २०, १२<sup>३</sup>; -<sup>३</sup>ही

आपमं २, १९, ३; आम्रिगु ३,

१, १ : २२; ह्रिगु २, १०, ७;

-हीः आम्रिगु २, ६, ३ : ४७;

५०; वौध २, ५, २८<sup>३</sup>; -हीम्यः

आम्रिगु १, २, २ : ३२; ३३××

वौश्रौ २, ११, ३४<sup>३</sup>; <sup>३</sup>; -ह्यः

आपमं २, २०, ६<sup>३</sup>; -ह्या

कप्र २, ७, १०; -ह्यै शंघ ११६:

७३; विध ६७, २३<sup>३</sup>; ७४, १.

पितामह्या(ही-आ)दि-

-दिभिः शंघ २३८.

पैतामह- -हम् वृदे ७, १४८;

-हाः अप ५२, १३, १; -हान्

शांश्रौ १५, २४, १<sup>३</sup>; -हे विध

१५, ३८; १७, २.

पितामह-दश-गण- -णम् काश्रौ

१५, ८, १६.

पितामह-नियोग- -गेन अप ६३,

१, ५.

<sup>३</sup>पितामह-पत्नी- -त्नीभ्यः वैश्रु

१, ४ : २०; ४, ४ : १०.

पितामह-पितामह- -हाय विध

७५, ५.

पितामह-प्रपितामह- -हाभ्याम्

वैश्रु ४, ७ : ५.

पितृ-कर्मन्- -र्म अप २३, १३, १;

शंघ ३५१; -र्मणा कौश्रु १, ६,

७; शांश्रु १, १०, ८; -र्मणि

वौश्रौ २१, ५ : २; काश्रु ४४ :

१२; वाघ ११, ४१.

पितृ-कार्य- -र्थम् वाधूश्रौ ४, ४२ :

४<sup>३</sup>; -र्थे वौध २, ८, २१.

<sup>३</sup>पितृ-कृत- -तस्य आश्रौ ६, १२,

३; शांश्रौ ८, ९, १; आपश्रौ.

पितृ-कृत्य- -त्ये वाघ ११, २७;

-त्येषु कप्र २, ७, १.

पितृ-गामिन्- -मि विध १७, ६.

पितृ-गो(त>)ता- -ता विध ८०,

१३; ८३, २०; -ताः विध ८५,

६४; -ते विध ७८, ५१.

पितृ-गृह- -हे वाघ १७, २२; विध

१५, ११; २२, ३४.

पितृ-घात- -तेन आम्रिगु २, ४, ८ :

१९.

<sup>३</sup>पितृ-जीर्ण- -र्णम् वैश्रु ४, ४ :

२४; ५, १५ : १५.

पितृ-ज्येष्ठ- -ष्ठयोः वैश्रु ६, ९ : ८.

पितृ-तर्पण- -णम् अप ४२, २, ६;

शंघ ४६३; वौध २, ३, २; विध

५९, २३; ३०.

पितृ-तस्रः (ः) आश्रौ ९, ३, २०; २१;

वाधूश्रौ; या १४, ५<sup>३</sup>.

पितृ-तीर्थ<sup>३</sup>- -र्थम् शंघ ११६ १०२;

११७; -र्थेन कप्र १, २, ३.

पितृतीर्थो(र्थ-उ)दक- -कम्

याशि १, ५३.

पितृ-त्रैयम्बक-पुनरुक्त-वर्जम् काश्रौ

२०, ७, २२.

पितृ-त्व- -त्वम् वौश्रु ३, १२ : १४;

वैश्रु ५, १५ : ११; -त्वे वृदे ६,

३८.

पितृ-दिङ्<sup>३</sup>-मुख- -खः कप्र ३, २,

१२.

पितृ-देव- -वाः विध २६, ७.

पितृ-देव-गुरु-भृत्य-भरण- -णे गौध

१७, ४.

१पितृ-देवता- -पाग ५; १, ६६<sup>३</sup>;

-ताम् शंघ १५९ : ५.

पितृदेवत्य,त्या- पा ५, १, ६६;

-त्यः वाधूश्रौ २, १७ : २,

अप्राय ३, २; -त्यम् अश्रु १८,

४; या ७, ४; -त्या वैश्रौ ५, १ :

४; कौसू ४, १२; -त्याः वौश्रौ

२४, ३८ : ३; कौश्रु ३, १४, ४;

शांश्रु ४, १, ८; काश्रु ६१, १;

कप्र १, २, २; -त्याभिः शांश्रौ

१५, १५, ७; -त्येषु गोश्रु ४, ४,

२१.

२पितृ-देवता<sup>३</sup>- -तानाम् वौश्रौ

१५, ३१ : १९; -ताम् आश्रु २,

४, १२.

३पितृ-देवता<sup>३</sup>- -ताः विध ५७, १३;

-ताभ्यः वौध २, ३, १८.

पितृ-देवता(ता-अ)तिथि-पूजा-

-जायाम् वाघ ४, ५.

पितृ-देवता(ता-अ)तिथि-भृत्य-

-त्यानाम् कौश्रु ३, ११, ४३; शांश्रु

४, ११, १२.

४पितृ-देव(व-ऋ)र्षि-श्राद्ध- -द्वेभ्यः

ऋश्रु ३, ३६.

पितृ-देवा(व-अ)ग्नि-कार्य- -र्थेषु

वौध १, ४, २१.

पितृ-देवा(व-अ)सुर- -राणाम् वृदे

६, १६०.

पितृ-देवत-कर्मन्- -र्मणि कौश्रु ३,

१०, ३५; शांश्रु २, १६, १; वाघ

४, ६; विध ५१, ६४.

पितृ-देवत-कार्य- -र्थेषु कौश्रु ३,

११, ४७; शांश्रु ४, ११, १६.

पितृ-देवत-भृत्य- -त्यानाम् वौध

२, ७, २१.

1. a) पामे. वैप १, ३०१२ f. द्व. । b) = तीर्थ-विशेष- । c) पूष. = दक्षिणा-दिश- । d) तु. पागमः । e) विप. । बस. । f) द्वस. । g) षर्षिसाध्वेः, षर्षिसिद्धे इति च संस्कृतेः टि. ।

पितृ-दैवत्य, त्या- -त्यम् वैगृ २,  
१: २४†; -त्या: वैगृ २, २:  
१०; ५, १४: १३; -त्ये गोगृ  
३, १०, २५; पावा ७, ३, ४५.  
पितृ-द्रव्य- -व्यम् विध. १८, ४२.  
पितृ-धर्म- -र्मण मागृ १, ५, ६.  
पितृ-नामन्- -मानि कागृ ३९:  
१४.  
पितृ-पक्ष- -क्षाणाम् शंघ ११६:  
७५; ११८; -क्षे शंघ ११६: ७४;  
११८; विध २२, ३३.  
पितृ-पति- -तये आम्रिगृ ३, ४, १:  
२०†.  
पितृ-पत्नी- -नीभ्यः वैगृ १, ४:  
१९; ४, ४: ९; -त्न्यः वैगृ १,  
७: १; सुधप ८५: २.  
पितृ-पात्र- -त्रम् वौपि २, १२, ४;  
-त्रेषु शांगृ ४, ३, ६; आम्रिगृ.  
पितृपात्रो(त्र-उ)दक- -कैः वैगृ  
७, ८: ७.  
पितृ-पायपात्र-त्रय- -ये विध २१,  
१४.  
पितृ-पिण्ड- -ण्डेषु आम्रिगृ ३, ११,  
३: २४; वौपि २, ११, ८; १२, २;  
गौपि २, ६, २१; अप २३, १, ३;  
-ण्डैः वैगृ ७, ८: ७.  
पितृ-पितामह- -हानाम् शंघ २९१.  
पितृपितामहा(ह-आ)दि- -दिषु  
पावा ६, ३, २५.  
पितृ-पितामह-प्रपितामह- -हा:  
आम्रिगृ २, ४, ७: २१; -हान्  
वैश्रौ २, ९: १०; -हेभ्यः आपश्रौ  
१९, ८, १४; हिश्रौ २३, १, ४१.  
पितृ-पीत- -त्स्य वौश्रौ ७, १७:  
१३; ३४: ८, ७: २१××; मांश्रौ

२, ४, २; ३२; ५, १, ५०; -ताय<sup>०</sup>  
आपश्रौ १, ८, ३; वौश्रौ.  
पितृ-पुत्र- -त्रयोः विध १७, २.  
पितृ-पुत्रा (त्र-आ) चार्य-याज्य (ज्य-  
ऋ, त्विज्- -त्विजाम् विध ५,  
११३.  
पितृ-पूजा- -जा वैगृ ४, ७: ९.  
पितृ-प्रभृति- -न्ति काश्रौ ४, १, १०.  
पितृ-वन्धु- -न्धुभ्यः वागृ १०, २;  
वाध ८, २; गौघ ४, ३.  
पितृ-भक्ति- -क्त्या विध ३१, १०.  
पितृ-भर्तृ-पुत्रा(त्र-अ)धीन्ता- -न्ता  
विध २५, १३.  
पितृ-भुक्त- -क्तम् वैगृ ४, ४: १४;  
५, १५: १५†.  
पितृ-भेद- -द्वे शाश्रौ ४, ४, ६.  
पितृ-भ्रातृ-भ्राति-सगोत्र-मातुला  
(ल-आ)दि- -दिषु वैगृ ६, ७:  
१०.  
पितृ-भ्रातृ-सपत्न- -त्नैः अप २३,  
१२, ४.  
पितृ-मत्- -पान ४, १, १५१; -मतः  
शांश्रौ ३, १६, ४; वौश्रौ १४,  
७; चाश्र ४१: २२<sup>०</sup>; -मते  
आश्रौ २, ६, १२; शांश्रौ ३, १६,  
२; ४, ४, १<sup>०</sup>; काश्रौ; -मन्तः  
जैश्रौका १८८; शंघ २७०;  
-मन्तम् शांश्रौ ३; १६, १३;  
आपश्रौ; -मन्तम् आश्रौ २, १९,  
२१; आपश्रौ.  
पितृमती- -तीभिः आपश्रौ  
१९, ३, ८; वैश्रौ १२, ५: ९;  
हिश्रौ १३, ८; २४.  
पितृमत्य- -पा ४, १, १५१;  
पावा ४, १, ८५; -मत्यम् वौश्रौ

८, ६: २; मांश्रौ २, ४, ५, १४.  
पितृ-मन्त्र-वर्जम् शांगृ ४, ४, ७.  
पितृ-म(य>)यी- -यी कागृ १८,  
२†.  
पितृ-मातृ-गुरु(रु-अ)ग्नि-स्वाध्याय-  
त्यागिन्- -गिनः विध ८२, २९.  
पितृ-मातृ-प्रदर्शित- -न्ता: विध  
१६, १७.  
पितृ-मातृ-वन्धु- -न्धुभ्यः शंघ  
६९.  
पितृ-मातृ-सुत-भ्रातृ-दत्त- -त्तम्  
विध १७, १८.  
पितृ-मात्र- -त्रा: वाधूश्रौ ४, ३७:  
११.  
पितृमेध- -धः काश्रौ २१, ३,  
१; आम्रिगृ ३, ७, २: १९××;  
वौपि; -धम् आम्रिगृ १, २, १:  
९; हिपि १९: १; ५; कौत्  
८०, १; विध २२, ८५; -धाव  
शुश्र ३, २१६; -धे आपश्रौ ९,  
११, २०; आम्रिगृ ३, ७, ४: ९;  
वौपि २, ३, १८; अप्राय २, ९;  
-धेन वैगृ ७, १: १०; अप्राय  
२, ८; वैध ३, ८, ४.  
पैतृमेध- -धः वौगृ ३, १, २१.  
पैतृमेधिक- -कम् वौश्रौ  
२९, ५: १९; वैश्रौ २०, २२: ५;  
आम्रिगृ ३, ९, १: ८; १०, २:  
१४<sup>१</sup>; ३: २; वौपि; -केन  
वैश्रौ २१, ७: ६.  
पैतृमेधिक-भाण्ड- -ण्डम्  
हिपि २३: १.  
पितृमेध-वत् वैगृ ७, २: ५.  
पितृमेध-विधि- -धिना वैगृ  
५, २: १०; ११.

a) विप.। वस.।

b) पामे. वैप १, २०१२ k द्र.।

c) मानह्लादेशस्याऽभावः उरसं.

(पा ६, ३, २५)। d) = ऋषि-विशेष-।

e) वैप १ द्र.।

f) दस. &gt; पस.। g) नाप. (याग- )।

h) \*कर्म इति पाठः? यनि. च कर्मन्-&gt; -र्म इति च शोधः (तु. पूर्वोत्तरे, स्थले)।



२पितृमे(ध>)धा<sup>१</sup>-धाः ऋअ  
२,१०;१८. : -

पितृ-यजन- -नम् वौश्रौ २,२:२१<sup>२</sup>.  
पितृ-यज्ञ<sup>३</sup>- -ज्ञः आपश्रौ ८, १३,  
५; १६,२२××; -ज्ञम् आपश्रौ  
३, १६, ७; वौश्रौ; -ज्ञस्य  
आपश्रौ ८, १३, १; भाश्रौ  
८, १५, १; -ज्ञान् लाश्रौ १०,  
११,१०; -ज्ञाय वैश्र ३, ७:८;  
-ज्ञे काश्रौ ५, ८, १; आपश्रौ;  
-ज्ञेन आपश्रौ ८, १५; १८;  
२२, ८,१९; काश्रौसं.

पैतृयज्ञिक,का- -कम् वौपि  
३,३,१२; -कान् वौश्रौ २; ८:  
३; २३; -कायाम् द्राश्रौ १३,  
१,१७; लाश्रौ ५,१, १५; १०,  
११,११; -केन वौश्रौ २८, ४:  
६.

पितृयज्ञ-वर्हिस्- -र्हिपि वौश्रौ  
२,३:१७.

पितृयज्ञ-लोप- -पे वौश्रौ २९,  
१२:३.

पितृयज्ञ-वत् शांश्र ५, १०, ६;  
मीस् ६, ८, ८.

पितृयज्ञ-सामान्य- -न्यात् वौश्रौ  
२०,३:१८.

पितृयज्ञा(ज्ञ-अ)ग्निचित्य-  
-त्ययोः काश्रौ २,६,२१.

पितृयज्ञा(ज्ञ-अ)व्यय- -ये कप्र  
२,९,२०.

पितृयज्ञा( ज्ञ-अ )र्थे-सिद्धि-  
-द्धये कप्र २,३,६.

पितृ-याण<sup>४</sup>- -णम् आपश्रौ २४,  
१३,३; अश्र १५,१२<sup>३</sup>; -णाः<sup>५</sup>  
आपश्रौ १३, २२, ५; वौश्रौ ४,

११:१८<sup>६</sup>; माश्रौ २,५,५,२२;  
वौश्र ४,४,९.

पितृ-रूप<sup>७</sup>- -पाः आपश्रौ १,८,७;  
माश्रौ १,१, २, ८; वाश्रौ १,२,  
३,१.

पितृ-लिङ्ग<sup>८</sup>- -ङ्गेन आपध २,४,५;  
हिध २, १, ५८; -ङ्गैः आमिष्ट  
३,३,२:२१; ११,३:२०.

पितृ-लोक- -कम् वौश्रौ २९,१३:  
६; वाधुश्रौ ४,१६:४; ६३:४;  
लाश्रौ; या १४, ८९; -कात्  
वाधुश्रौ ४,६३:४; या १४,८;

-कै आपश्रौ १०,५,५; वौश्रौ.  
पितृलोक-काम- -मस्य आपश्रौ  
१४,५; २२; ६,९; वौश्रौ.

पितृलोक-गत- -तः, -तस्य विध  
२०,३४.

पितृ-वंश- -शः शांश्र ४, १०, ५;  
अप ४३,४,५९<sup>१</sup>.

पितृवंश-मातृवंश- -शौ कप्र २,  
२,३-८.

पितृ-वत् काश्रौ ५, १०, १३; २०,  
६,१३××; आश्र.

पितृ-वल- -पागम ४३०.

पितृ-वित्ता(त्त-अ)लाभ- -भे विध  
१५,४३.

पितृ-विभ(क्त>)क्ता- -क्ता विध  
१७,३.

पितृ-वेश्मन्- -श्मनि विध २४,  
४१.

पितृव्य- पा,पावा ४, २, ३६; -व्यः  
वौश्र १,२,६५; कप्र २, ३, ७;  
८; वैध २,११,२; -व्यम् वौपि  
३, १, ५; -व्यस्य वौश्रौ २४,  
३२:४.

पितृव्य-मातामह-मातुल-श्वशुर-  
नुप-पत्न्य(नी-अ)भिगमन-  
-नम् विध ३६,४.

पितृव्य-मातुल- -लान् वाध १९,  
३१.

पितृव्य-मातुल-श्वश्र-श्वशुर-  
नुद- -द्वाः शंश्र ४३.

पितृव्य-स्नातक-मातुल- -लाः  
वाध ११,२.

पितृव्यां(व्य-आ )चार्यं(र्थ-ऋ)  
त्विद्-मातुल-श्वशुरा(र-आ)दि-  
-दीन् वैध १,४,२.

पितृ-शब्द- -ब्दः भाशि ४०;  
-ब्दम् काश्रौ १५,६, ११; वैश्रौ  
९,४:४.

पितृ-शासन- -नम् वौध ४,१,१५.

पितृ-प(<स)द्- -पदः वाश्रौ १,  
२,२, २; जैश्र २, २:२; कौस्  
८७,१६<sup>१</sup>; -पदम् आपर्म १,१०,  
२; वौश्र १, ६, २३; -पदे पाश्र  
३,१५,१३.

पितृ-प(<स)द्न<sup>८</sup>- -नः<sup>६</sup> आपश्रौ  
७,९,१०; वौश्रौ; -नम् काश्रौ ६,  
२,१८<sup>२</sup>; माश्रौ; -नाः<sup>६</sup> माश्रौ  
१,८,२,७; अर्प ३:२३.

पितृ-प्व(<स्व)स- पा ८, ३, ८४;  
-सा वैध २,११,२; विध ३२,३.

पैतृव्यसेय- पा ४,१,१३३.

पैतृव्यसेयी- -यी या  
१४,३०<sup>७</sup>.

पैतृव्यसीय- पा ४,१,१३२.

पितृव्यस-मातृव्यस-स्वस-  
गमन- -नम् विध ३६,५.

पितृ-संयुक्त- -क्तम् भाश्र १, १२:  
२; ४; १०; -क्तानि आमिष्ट २,

a) विप. (ऋच्) । तद्धति वृत्तिः । b) नाप. (याग-) । c) वैप १ द्र. । d) पाभे. वैप १,  
२०१३ ० द्र. । e) विप. । वस. । f) पाभे. वैप १; वेदिपदः मा २, २९ टि. द्र. । g) पाभे. वैप १,  
२०१३ ० द्र. । h) पाभे. वैप १, २०१० २ द्र. ।

६,३ : ५९; आपृ १,१८; वौघ  
 १,३,७; वौघ २,५,३१<sup>३</sup>फं.  
 पितृ-संहिता- -ताम् कप्र १,३,८.  
 पितृ-संचर- -रः कौसू ८३,२६.  
 पितृ-स्थान-गत- -ताय वैगृ ५,  
 १४ : ४; १५ : ९.  
 पितृ-हन्- -घ्नः शंघ ३७७ : १०.  
 पितृ-हन्त- -स्ते आमिगृ ३,३,२ :  
 २२.  
 पितृ(तृ-अ)श- -शः शंघ २७२.  
 पितृ(तृ-अ)र्थ- -र्थम् वैगृ ७,८ : १;  
 -र्थं वैगृ ४,३ : ४.  
 पितृ(तृ-अ)वनेजन- -नम् काश्रौ  
 ५,९,१३.  
 पितृ(तृ-अ)दि- -द्वयः वैगृ ७, १ :  
 ८; -दिभ्यः वैगृ ४, ४ : ११;  
 -दीन् वैगृ ६, ६ : ६; वैघ २,१३,  
 ५.  
 पितृ(तृ-अ)त्रय-पत्नी- -त्नीषु शंघ  
 १२०.  
 पितृ(तृ-अ)न्धवा(व-अ)लाभ-  
 -मे वैगृ ६,७ : १२  
 पितृ(तृ-अ)न्ध- -यम् वाघ्रौ २, ८ : १;  
 २.  
 पितृ(तृ-अ)च्छिष्ट-समीप- -ये गौपि  
 २,४,१९.  
 पितृ(तृ-अ)प- पा ४,२,३१; ३,७९;  
 -प्यः कप्र २, ३, ४; विघ ५९,  
 २३; शुभ्र; -प्यम् काश्रौ १,१०,  
 १४; आगृ ४, १, १९; कौगृ;  
 या ११,३३; -प्यस्य गोगृ १,  
 ४,२०; या ३,२; ४,७<sup>३</sup>फं; -प्या  
 आश्रौ २,१९,१; ४,८,२; ९,२,

१७; शाश्रौ; -प्याः ऋल २,१०,  
 १४; शुभ्र २, ३९५; -प्याणाम्  
 आश्रौ १२,८,२; -प्याणि शाश्रौ  
 १, १, ७; १४; आपृश्रौ; मासू  
 ६, ८, २७<sup>३</sup>; -प्यात् शाश्रौ  
 २,१४,३; १५,४; -प्यान् गौघ  
 १८,२१; -प्याम् शांघ ४, १०,  
 २; अप ४३, ४, १; -प्यायाम्  
 आश्रौ २,१८,७; शाश्रौ ४,६,२;  
 वैताश्रौ ९,८; १२<sup>३</sup>फं; -प्ये काश्रौ  
 ३,६, ११<sup>३</sup>फं; कौगृ १, ३, २<sup>३</sup>फं;  
 ४xx; शांघ; १, ७, ३; -प्येण  
 अप ४४, १, १४; शंघ ११६ :  
 ७; विघ ६४,३१; -प्येषु काश्रौ  
 १, ७, २६; भाश्रौ.  
 पितृ-प्रतिग्रह-भोजन- -नयोः  
 वौघ १,११,२६.  
 पितृ-मन्त्रा(न्त्र-अ)नुद्वर्ण-  
 -णे कप्र १,२,१३.  
 पितृ-त्र(त>)ती- -ती ऋप्रा  
 ९,११<sup>३</sup>फं.  
 पितृ-पवीत- -त्तम् वैताश्रौ  
 ७,१५; अप ४५,१,२७.  
 पितृ-पवीतिन्- -ती वैताश्रौ  
 २८,३६; कौसू ८७,२६xx.  
 पितृ-पसद्- -सदः  
 आश्रौ २,१५,९.  
 पितृ- पाठमो २, २, १३४; पाग ५,  
 २,९७; -त्तम् वौश्रौ २, ५ :  
 २०<sup>३</sup>फं; वृदे ७, ८०; -त्तेन वैगृ  
 ५,१ : २१.  
 पितृ- पावा ५,१,३८; -कस्य  
 अप ७०,१२,१; -काः अप ६८,

१,३; १९.  
 पितृ-ज्वर- -रः अप ५७,१,५.  
 पितृ-प्रकृति- -तयः अप ६८, १,  
 १२.  
 पितृ-ल- -पा ५,२,९७.  
 पितृ-प्रद- पितृ- द्र.  
 पितृ-घा,पितृधामि पागृ ३, १५,२३<sup>३</sup>फं;  
 पितृ-घ्यात् वैगृ ५,७ : ११; ८ : ६.  
 पितृ-धान- पाग २, ४, ३१; -नम्.  
 भाशि १२०<sup>३</sup>फं; -नात् वौपि ३,  
 १०,३; -ने कौगृ ३,२,१३<sup>३</sup>फं.  
 पितृ-धाना(न-अ)र्थ- -र्थम् हिश्रौ  
 १,३,८.  
 पितृ-घाय आमिगृ २, ४, १० : ३७;  
 कागृ २४, ५; वैगृ ५, ७ : ७;  
 १० : ५.  
 पितृ-हित- -तः आश्रौ ९, ७, २२;  
 वाश्रौ ३,२,५,२८; द्राश्रौ.  
 पितृ-हिता(त-अ)नन- -नम्  
 आमिगृ २,३,३ : १०.  
 पितृ- ( > )पैतृक- पा.) पाग ४,  
 २,८०.  
 पितृ-नह- > पितृ-नह कौसू ३९,१५.  
 पितृ-नाक- पाठ ४,१५; पाग २,४,३१;  
 -कम् अप ४८,१२२<sup>३</sup>फं; विघ ३,  
 २९<sup>३</sup>फं; या ३,२१<sup>३</sup>फं; ५,२२<sup>३</sup>फं.  
 पितृ-नाक-सेन- -नाय अप २०, ४,  
 २<sup>३</sup>फं.  
 पितृ-नाक-सेन-यजमान- -नात् अप  
 २०,७,११.  
 पितृ-नाक-हस्त- -स्तः<sup>३</sup> अपश्रौ ८,  
 १८, ९; वौश्रौ ५, ११ : ७;  
 भाश्रौ; या ३,२१; ५,२२.

a) तस्येदमित्यर्थे घ > इयः प्र. उलं. (पा ४, ३, १२१) । b) वैपश् निर्दिष्टयोः समावेशः द्र. ।  
 c) पितृणि इति जीसं. ? । d) पाभे. वैप २,३खं. पितृ तैत्रा १,२, १,२० टि. द्र. । e) प्रिष्ये इति पाठः ? यनि.  
 शोषः (तृ. शांघ.) । f) कप्र. > पस. उप. = समुच्चारण- । g) वैप १ द्र. । h) वैप २,३खं. द्र. । i) विप. ।  
 बस. । j) यनि. नैप्र. < जपि । k) सपा. शांघ ३,२,९ वपिधानम् इति पाभे. । l) विप. > नाप. । बस. ।  
 m) पाभे. वैप १,२०-१४ III द्र. ।

पिनाकिन्- क्तिने वैगृ ५, २: २९;  
-की आग्निगृ २, ५, ३: १५;  
अप ४३, ५, १४; वौगृ ३, ७, १४.

✓पिन्व पाधा. भ्वा. पर. सेचने;  
पिन्वते आश्रौ ५, १८, ५;  
आग्निगृ ३, ८, २: १६; वौपि १,  
१५: २६; पिन्वति माश्रौ ४,  
३, १३; पिन्वन्ति आश्रौ ५,  
१४, १७; शाश्रौ ७, १९, १४;  
वौश्रौ १३, ३९: १२; पिन्वताम्  
वाश्रौ १, १, ३, १२; पिन्वताम्  
माश्रौ १, १, ३, २३; पिन्वस्व  
शाश्रौ ४, ९, २०; काश्रौ ३, ४,  
१० × ×; आपश्रौ ४, ६, २६; १०,  
९; ११, ३ × ×; काश्रौसं ३६:  
१७; वौश्रौ ३, १८: २९ × ×;  
माश्रौ ४, ८, ३; १६, १० × ×;  
माश्रौ; वैश्रौ ७, २: ३०; ३: ५ × ×;  
हिश्रौ ६, ३, ३ × ×; पिन्व आश्रौ  
२, ७, ८; काश्रौ १७, ८, २१;  
आपश्रौ; पिन्वतम् या ६, २९;  
अपिन्वत् शाश्रौ ८, २५, १.  
पिन्वयति वौश्रौ ९, ९: १५;  
१८; वैश्रौ १३, ११: १४;  
पिन्वयेत् आपश्रौ १५, १८, २;  
माश्रौ ११, १८, ५.

पिन्वन<sup>०</sup> - नम् वौश्रौ ९, ३: १७;  
-ने काश्रौ २६, १, २१; २,  
१२ × ×; काश्रौसं; -नेन वौश्रौ  
९, १०: २४.

पिन्वना( न-आ)दि- दीनाम्

काश्रौ २६, १, २९.

पिन्वन्त्यपी(य>)या<sup>१</sup>- चया  
शाश्रौ १०, १३, १०.

पिन्वमान, ना- नः आपश्रौ २,  
२१, ७; १७, १८, १; हिश्रौ; आगृ  
२, ४, १४<sup>६</sup>; -नम् काश्रौ २६, ६,  
८; वौश्रौ १, १७: २२<sup>६</sup>; माश्रौ  
१, २, ३, २५; आग्निगृ १, ७, ३:  
३४<sup>६</sup>; -नस्य माश्रौ १, २, ३,  
२५; वाश्रौ १, ३, १, २४; -ना  
आपश्रौ १६, ३१, १; वैश्रौ; -ना:  
आपश्रौ १, १२, १४; भाश्रौ;  
-नाय आपश्रौ १६, ३१, १;  
वैश्रौ १८, २०: ५३; हिश्रौ ११,  
८, ४; -ने आपश्रौ १६, ३०-३१,  
१; वैश्रौ; -नेभ्यः आपश्रौ १६,  
३१, १; वैश्रौ १८, २०: ५३;  
हिश्रौ ११, ८, ४.

पिपान-, पिपासत्- प्रम्. ✓पा(पाने)  
द्र.

पिपील<sup>१</sup>->पी(ल-क<sup>१</sup>>)लिका-  
पाउभो २, २, १८<sup>१</sup>; -का जैगृ  
१, ३: ३; या ७, १३<sup>६</sup>; वैशि;  
-का: आपश्रौ ६, १२, ४<sup>१</sup>;  
माश्रौ; -कामि: याशि २, १०<sup>७</sup>;  
-काम्य: वाश्रौ १, ५, २, ४६<sup>१</sup>;  
मागृ २, १२, १७.

पिपीलिक-म(ध्य>)ध्या<sup>१</sup>-ध्या  
ऋअ १, ५, ६; ६, ४ × ×; शुअ;  
या ७, १३; माशि ९, ३<sup>१</sup>; -ध्या:  
ऋअ २, ९, ११०; अअ ९, ६(३);

-ध्याम् द्राश्रौ ८, ३, ९; शुअ ३,  
१०; -ध्ये ऋअ २, १०, १०<sup>५</sup>;  
अअ ६, २; उनिस् ५: ७.

पिपीलिक-मध्य(म>)मा<sup>१</sup>-  
-मा ऋप्रा १६, ३९; ५२.

पिपीलिका-किरि<sup>१</sup>-रिस् वाश्रौ  
१, ४, २, ८.

पिपीलिका(क-अ)ण्ड-संक्रा-  
न्ति-न्ति: अप ६५, २, ७.

पिपीलिका(का-अ)नाचार- -रे  
कौसू ९३, २३.

पिपीलिका-मध्य<sup>१</sup>, ध्या<sup>१</sup>- -ध्य<sup>०</sup>  
विध ४७, ४; ५; -ध्यम्<sup>०</sup> वौध  
३, ८, ३२; -ध्या निस् १, २:  
१३; -ध्या: लाश्रौ ४, ७, ३<sup>६</sup>;  
-ध्याम् द्राश्रौ ८, ३, २१<sup>६</sup>; लाश्रौ  
४, ७, १; निस् ६, ६: १८; ८,  
६: २०.

पिपीलिकावटः<sup>१</sup> आश्रौ ८, ३,  
२१; शाश्रौ १२, २३, ३; वैताश्रौ  
३२, २५.

पिपीलिको(का-उ)हाप<sup>१</sup>-पान्  
कौसू ११, ५; -पे कौसू ११, ४.

पिपीलिक<sup>१</sup>-कान् भाश्रौ ६, १३,  
१०; हिश्रौ ३, ७, ९८; -कै: वौगृ  
४, ९, ५.

पिपीपत्- ✓पा(पाने) द्र.

शिप्प(क>)का- पागम ६१.

शिप्पल<sup>१</sup>- पाउभो २, ३, ९९; पाग ४,  
२, ९०; ३, ७६<sup>६</sup>; -लम् अप ४८,  
७५<sup>१</sup>; वाध; निध १, १२<sup>१</sup>;

- a) प्रपुग रूपम् । b) पाभे. वैप २, ३खं. जिन्वतम् तैत्रा ३, ७, ४, १६ टि. द्र. । c) पाभे. वैप १,  
१९९० m द्र. । d) पाभे. वैप २, ३खं. जिन्व तैत्रा ३, ७, ५, ७ टि. द्र. । e) = [मृत्तिकानिर्मित-] पात्र-विशेष-  
(तु. विद्याधर: [काश्रौ.]) । f) < पिन्वन्ति अप: ( ऋ १, ६४, ६ ) । g) पाभे. पृ ५४१ b द्र. ।  
h) पाभे. वैप १, २०१५ g द्र. । i) वैप १ द्र. । j) < √ पिल् इति । k) = गायत्री-भेद- । वस. पूष.  
हस्वविकल्पत्वं (पा ६, ३, ६३) । l) = विवृत्ति-विशेष- । m) = पिपीलिकोत्कीर्ण-सूचय- । n) = अनुष्टुप्-  
भेद- । o) = चान्द्रायण- । p) परस्परं पाभे. । q) वैप १, २०१६ c, d द्र. । r) पिपील इत्यनेन  
सन्ध्यायता द्र. । s) तु. पागम. । t) = जल- ।

या १४, २९; -लानि आपश्रौ  
१०, १६, ११; आश्रौ १०, १०, ९.  
पैप्पल- पा ४, ३, ७६.  
पिप्पल-मात्र- ऋम् काश्रौ ३, ४, १;  
आपश्रौ.  
पिप्पला(ल-अ)द- दम् अप ३९,  
१, १; -देन अप २२, १०, ४;  
२३, १४, ३.  
पैप्पलाद- दम् अप २, ३, ५;  
-दा: अप १३, १, ७; -देन  
अप २, ६, १.  
पैप्पलादि- दय: वौश्रौप्र ४६:  
३.  
पिप्पला(ल-अ)दि-> ण्दि-शान्ति-  
गण- ण: अप ३२, १, २०.  
पिप्पलीय- पा ४, २, ९०.  
२पिप्पल<sup>१</sup>- -ला: चव्यू ४: २.  
३पिप्पल(ल>)ली<sup>२</sup>- पा, पाग ४, १,  
४१; पाग ४, ३, १६७; -ली  
कौस् २६, ३३; अप; -लीम्  
अशां २१, १; अत्र ६, १०९;  
-ल्य: अप्रा २, ३, १४४.  
पिप्पली, लि<sup>३</sup>-मरीच- च्चे आपघ  
१, २०, १२; हिष १, ६, २६.  
पिप्पली-सुकुन्दक-भुस्तृण-शिमु-  
सर्पप-सुरसा-सर्जेक-सुवचैल-  
कृग्माण्डा(ण्ड-अ)लखु-चार्ताकु-  
पालक्यो(क्या-उ)पोदकी-तण्डु-  
लीयक-कुसुम्भ-पिण्डालुक-महि-  
षोक्षीर- राणि विध ७२, १७.  
पिप्पली-मूल- (>लीय- पा.)  
पाग ४, २, ९०.  
पिप्पल<sup>४</sup>- (>पैप्पलव्य-पा.) >पैप्प-  
लव- पा.) पाग ४, १, १०५; २,

१११.  
‡पिप्पहु अप ४८, १७.  
पिप्रत्- ✓पृ, पृ द्र.  
पिप्रु<sup>५</sup>- मुम् सु २९, ५; -प्रो: ऋत्र  
२, ६, २०.  
१-२पिच- प्रमृ. ✓पा (पाने) द्र.  
पियाल- पाठ ३, ७६.  
‡पिलकावत् वौश्रौ ७, ६: ४२.  
पिलिपिच्छ- पाठभो २, २, ८५.  
‡पिलिपि(ल>)ला<sup>६</sup>- ला वौश्रौ  
१५, २९: २; ४.  
पिलु- पावा ५, २, ३३.  
‡पिल्व<sup>७</sup>- ल्वयो: आपश्रौ १६,  
१८, ६; वैश्रौ १८, १५: १६.  
‡पिवा वाश्रौ ३, ४, १८.  
‡✓पिश, >पिश (वधा.)<sup>८</sup> पाधा.  
तुदा. पर. अवयवे, पिशति शैशि  
२७७; पिशतु आपमं १, १२, १;  
वौगृ १, ७, ३७; मागृ; कर्पिशत्  
या ८, १४४.  
पिशित<sup>९</sup>- पाठ ३, ९५; -तम् वौश्रौ  
४, ९: ८; १५, ३०: २३; -तस्य  
वाधूश्रौ ३, ९७: १; -तानि  
आग्निगृ ३, ५, ६: ९; वौषि १,  
४: २५; हिपि ३: ५; कौस् १२,  
८.  
पिशित-भक्षण- णे अप ६८,  
२, १७.  
पिशित-होम- ऋम: आग्निगृ ३,  
७, ३: २३.  
पिशिता(त-आ)म<sup>१०</sup>- मम् कौगृ  
२, ७, २३; शां २, १२, १३.  
पिशुन<sup>११</sup>- पाठ ३, ५५; पाग ५, १,  
१२४; १३०; -न: विध ४५, ७;

या ६, ११४; -नम् विध ५,  
१९१; -ताय या ६, ११.  
पैशुन- पा ५, १, १३०; -नम्  
गौघ २१, १०.  
पैशुन्य- पा ५, १, १२४;  
-न्यम् वाघ ६, २४; विध ३७, २.  
पैशुन्य-मत्सरा(र-अ)-  
भिमाना( न-अ)हंकारा( र-अ )  
श्रदा( द्वा-अ)नार्जवा( व-आ )  
त्मस्तव-परगर्हा-इम्भ-लोभ-मोह-  
क्रोधा( व-अ)सूया-विवर्जन-  
नम् वाघ १०, ३०.  
पिशुना(न-अ)नृतवादि-क्षतघ-  
सात्म-रसविक्रियन्- -यिणाम्  
विध ५१, १२.  
‡पिष्ट<sup>१२</sup>- ष्टम् अप ४८, ७९;  
निध ३, ७.  
२पिष्ट->‡पिष्ट-त(म>)मा<sup>१३</sup>-  
-मया या ८, २०४; ऋप्रा ७, ९.  
पेपिशा(न>)ता- न्ने आपमं २,  
२०, ३१४.  
पेश<sup>१४</sup>- पाग ४, १, ४१; ५, २, ९७.  
पेशी- पा ४, १, ४१<sup>१५</sup>; -शी  
या १४, ६; -शीम् कागृ ६२,  
५; -श्य: कागृ ६२, ३; ६६, ३.  
पेशी-शत- तानि विध  
९६, ८३.  
पेशल<sup>१६</sup>- पाठ २, १०६; पा ५,  
२, ९७; -लम् अशां २५, ३४.  
‡पेशस<sup>१७</sup>- -श: अप ४८, ७९; ९१;  
निध १, २, ३, ७; या ८, ११४<sup>१८</sup> S;  
-शसा आपश्रौ २०, ३, ९; हिश्री  
१४, १, ३०.  
पेशि<sup>१९</sup>- पाठना ४, १३०.

a) = ऋषि-विशेष-। उस.। b) = वेदशास्त्रा-। व्यु. ?। c) वैप १, २०१६ म द्र.। d) आपघ.  
पाठः। e) व्यप.। व्यु. ?। f) वैप १ द्र.। g) अर्थः व्यु. च ?। h) पाभे. वैप १, २०२१ d द्र.। i) या  
६, ११; ८, ११ पा ७, १, ५९ परानुष्टः द्र.। j) वैप १, २०१७ e द्र.। k) कस. परनिपातः (पा २, २, ३१)।  
l) रूप-नामन्-। m) = पिशित-। n) वैतु. श्रमा. < पेशि- इति।

शिशिकरोहितः<sup>a</sup> हिग २,७,२<sup>b</sup>.  
 पिशाङ्ग<sup>cd</sup> - पाठो २,२,६१; पाग ६,  
 २,८५; -ङ्गः आपथौ २०,२,९;  
 वाथौ १,५,५,२; ३,२,६, ३४;  
 हिथौ १४,१, २१; वौग ३,१०,  
 ६<sup>e</sup>; -ङ्गम् कौसू ३९, २; ऋप्रा  
 १७, १४; अप्रा ३, ४, ११;  
 -ङ्गाः आपथौ २०, २३, १०;  
 वौथौ १५, ३८:११; हिथौ १४,  
 ५,१७.  
 पिशाङ्गी - पावा ४,१,३९; -ङ्गीः  
 आपथौ २२, २०, १४; हिथौ  
 १७,७, २६; -ङ्गयः काथौ २२,  
 ९,१३.  
 पिशाङ्ग-मृष्टि<sup>e</sup> - ष्टिम् आमिग २,  
 ६,८:३९<sup>f</sup>.  
 १ पिशाङ्ग-रूप - > ङ्ग-रूपि(न् >)-  
 णी - ण्यः उनिस् ८:४.  
 २ पिशाङ्ग-रूप - ण्यः आथौ ३,८,  
 १; शाथौ ३३,४,२; आपथौ.  
 पिशाङ्ग-लोहित<sup>g</sup> - तः भाग २,७:  
 २१<sup>h</sup>.  
 पिशाङ्ग-सदृश<sup>i</sup> - दृशम् शाथौ १८,  
 ३,२<sup>f</sup>.  
 पिशाङ्ग-सूत्र - त्रम् कौसू ४३,१.  
 ३ पिशाङ्गिला<sup>j</sup> - ला वौथौ १५, २९:  
 ३,४.  
 पिशाच<sup>k</sup> - पाग ५,१,१२४; २, ६४;  
 ३,११७<sup>l</sup>; ४,३८; ६,३, १०८;  
 -चः अप २३, ५, १; -चम्  
 आमिग २, ६,८:४०<sup>f</sup>; -चाः  
 आपथौ १,७, १३; ४, ६, ४;

वौथौ; -चान् वाधुथौ ४, ८८:  
 १०; आमिग १, ५, ३: ४<sup>l</sup>;  
 हिग; -चानाम् वैथौ १,१: २३;  
 -चेभ्यः आपथौ १८,९, १४;  
 हिथौ १३,३,३७; माग २, १२,  
 १७; अप २०, ७, ३; -चैः अप  
 ७०<sup>m</sup>, १५, ४.  
 पिशाची - चीम् वृदे ५,  
 १९; २२.  
 पैशाच<sup>n</sup> - पा ५, ३, ११७; ४,  
 ३८; -चः आग १, ६, ७; वैग;  
 -चै वैग ६,१२:११.  
 पैशाच्य - पा ५,१,१३४.  
 पिशाच-क् - पा ५,२,६४.  
 पिशाचकिन् - पावा ५,२,१२९.  
 पिशाच-तस (:) कौसू २५,३२.  
 पिशाच-भिक्षा - ङ्क्षा आपथ २,  
 १७,८; हिग २,५,३७:  
 पिशाच-वत् विध ५१,७३:  
 पिशाच-विद्या - द्या आथौ १०,  
 ७६.  
 पिशाच-संयुक्त - क्तम् आथौ १०,  
 ७,६.  
 १ पिशाच-हन - हनम् आपथौ  
 १६,३०,१; वैथौ १८,२: ४३;  
 हिथौ ११,८,४.  
 पिशाचा(च-अ)सुर-राक्षस - साः  
 नांशि १,७,७<sup>f</sup>.  
 पिशाचो(च-उ)रग-गन्धर्व-यच-  
 राक्षस-मालुप - पान् विध १,  
 १७.  
 शिशिल<sup>o</sup> - > ङ्गल-मात्र - त्राः

आपथ ७,१२; हिग २, ६२.  
 रपिशिल<sup>p</sup> - > पिशाली<sup>q</sup> - द्राथौ  
 ११,२,५; लाथौ ४,२,४<sup>r</sup>.  
 पिशील-वीणा-तन्त्री - त्त्रीम्  
 कौसू ३२,११.  
 १ पिपू, पिपू<sup>s</sup> - पावा. रूधा. पर. सं-  
 चूर्णने, पिपनि वौथौ १,७: १२;  
 ङ्गिष आपथौ १,२१,७, वौथौ  
 १,७: १६; भाथौ.  
 पिपटि काथौ २,५,६; आपथौ  
 १, २१, ६x४; भाथौ; पिपन्ति  
 काथौ ५-८, १९; वौथौ १,७:  
 १६; भाथौ ८, १६,३; पिपिड्ड  
 वौथौ १२,१: ८.  
 पेपयति, कौग १, १-२, १; पेप-  
 येत् गोग २, ७, १७; द्राग २,  
 २,२३; ३३.  
 पिपत् - पन् आपथौ १८,८,११.  
 २ पिपटि, टा<sup>t</sup> - टम् वौथौ ६,२: १५;  
 काग ४.४१: ५; हिग १, १०,  
 ४; -टस्य कौग ४, ४, १९;  
 शाग ४,१९, २; -टान् माग २,  
 १४, २८; -टानाम् आपथौ ८,  
 २, ४x४; भाथौ; -टानि काथौ  
 २, ५, १०; आपथौ; -टामिः  
 आपथौ १६, ४, १; वैथौ १८,  
 १: ५९; हिथौ ११, १, ४४;  
 -टै भाथौ ८, ५, २१; -टैन  
 वैथौ २, ९: ३; वैग ३, २१:  
 १३; -टेषु आपथौ १, २४, ५;  
 भाथौ; -टैः आपथौ १६, ४, १.  
 ३ पैपटिक<sup>u</sup> - कम वैग ५, ७:

a) पाठः? पिशाङ्गरोहित इति संस्कृतुः टि. ?। b) सप्र. भाग २, ७: २१ ङ्गलोहितः इति पाभे.।  
 c) वैप १ द्र.। d) विप., नाप.। e) = सर्प-विशेष-। f) तस. (पा २,१,६९)। g) = आयुधजीवि-  
 संघविशेष- इति त्रापाभा.। h) च्वात् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सपा. खि २,११,३ हिग १,१९,७)।  
 i) = पिशाच-, विवाहभेद-। j) पाभे. वैप २,३खं. देवजनविद्या टि. द्र.। k) = प्रमाण-विशेष- (वाहवोरन्तराल-  
 प्रमृ. [तु. भाष्यम्.]। व्यु. ?। l) वैप २, ३खं. द्र.। m) = पिशीलवीणा - इति MW:। n) अपि इति पाठः?  
 यनि. शोधः (तु. द्राथौ.)। o) तुदा. उत्सं.। p) विप.। विकाराथै ठक् प्र. उत्सं. (पा ४,३,१४६)।

७; वैष ३, ५, ६; -काम् वौग्  
३, ८, २.

वै(ष्ट>)ष्टी<sup>०</sup> - ष्टी विघ  
२२, ८२.

विष्ट-क- पा ४, ३, १४७.

विष्टिका-(>रपैष्टिक-पा.)

कनिष्ठिका- टि. द.

विष्ट-कुलमाष-मांस- सानि

अशां १५, ४.

विष्ट-चरु- -रुम् माश्रौ ५, १,  
१०, ५६.

विष्ट-भाज्- -भाक् माश्रौ १, ७,  
१, २२.

विष्ट-मय- पा ४, ३, १४६;  
-यम् अप ७, १, ४.

विष्टमयी- -यीम् अप ४, ३,

१; ५, ४××; -य्याः अप ३६,  
६, २.

विष्ट-मिश्रो(श्र-उ)दक- -कम्  
वैश्रौ ११, ११ : १२.

विष्ट-मोदक<sup>०</sup>- पाग २, २, ९; ६,  
२, १५१.

विष्ट-रात्रि<sup>०</sup>- -त्रिम् अप ६, २,  
१; -य्याः अप ६, १, १.

विष्ट-लेप- -पम् माश्रौ ३, ९, ६;  
७, १७, ९; माश्रौ; -पान् काश्रौ

३, ८, १; आपश्रौ ३, १०, १;  
वैश्रौ ७, १० : ८; -पेन माश्रौ

१, २, ३, २३; -पौ माश्रौ १, ७,  
३, ४९.

विष्टलेप-फलीकरण-होम-

-माभ्याम् आपश्रौ ३, ९, ११;

हिश्रौ २१, २, ७०; -मौ आपश्रौ  
३, ९, १२; १२, २५, १३; भाश्रौ  
३, ९, ४; ७, १७, १५; हिश्रौ २,  
५, २६; ४, ४, ७१.

विष्ट-संयवन<sup>०</sup>->नी<sup>०</sup>- -नी

वैश्रौ ११, ९ : ८; -नीम् आमिष्ट  
३, ४, २ : ८; वैग् ५, ४ : ३ १<sup>०</sup> ६;

हिपि ६ : ४६.

विष्टसंयवनी(य>)या<sup>०</sup>-

-याः वौश्रौ १, ८ : २१.

विष्टा(ष्ट-अ)न्न- -न्नम् आपग्  
२२, ६; वौग् १, २, ५४.

✓विष्टि, विष्टयेत् अप ३५, १,  
९.

विष्टो(ष्ट-उ)त्पवन-स्थान- -ने  
वैश्रौ ९, १ : १२.

विष्टो(ष्ट-उ)द्वप(न>)नी<sup>०</sup>-

-नीम् वौश्रौ १, ४ : ९; आमिष्ट  
३, ५, ७ : ९; वौपि १, ६ : ४;

३, ३, १२<sup>०</sup>!

पिष्ट्वा काश्रौ ५, ८, १८××; वौश्रौ.

पिष्यमाण- -णेषु काश्रौ २, ५, ९.

पेप- -षम् माश्रौ ३, ८, २.

पेषण- -णम् माश्रौ २, ५, ४; ३३;

हिश्रौ १०, ५, ३९; मीस् ३, ३,  
३४; १०, १, ४९; -णे वौश्रौ

२०, ७ : १५.

पेषणी<sup>०</sup>- -णी शेष १३१;

विघ ५९, १९; -ण्योः वैग् ३,  
७ : २०; -ण्यौ वैश्रौ ११, ९ :

६.

पेषण-श्रेला- -श्याम् वाश्रौ १,

७, ४, १७.

पेषणा(ण-अ)र्थ- -र्थान् काश्रौसं  
४ : ५.

पेषणो(ण-उ)पधान- -ने काश्रौ  
२, ४, २४.

पेषयित्वा कौग् १, १२, ८××; शांष्ट.

पेषि- पाउवृ ४, ११९.

१-२पिष्ट- ✓पिष् द्र.

३पिष्ट- ✓पिष् द्र.

४पिष्ट<sup>०</sup>- (वैष्ट- पा.) पा, पाग २, ४,  
६९; पाग ४, १, ११२.

पिष्टप<sup>०</sup>- -पम् विघ १५, ४६<sup>०</sup>.

पिष्ट्यात- (>त्त-क- पा.) पाग ५,  
४, २९.

✓पिस् पाधा. भ्वा., चुरा. पर. गतौ,  
पिस्त्यति निघ २, १४<sup>०</sup>!

पेस्वर- पा ३, २, १७५.

पि-हित- पि✓धा द्र.

✓पी ✓पि द्र.

पीठ<sup>०</sup>- पाउभो २, २, ११३; -ठम्  
अप ५, २, ५; ४८, ९८<sup>०</sup> ११;

-ठानि वैग् ४, १३ : १०; ११.

पीठ-चक्र<sup>०</sup>- -केण आग् ४, २, ३.

पीठ-छत्र-ध्वज-निभ- -भाः अप  
७०<sup>३</sup>, ४, ४.

पीठ-सर्पिन्-> पैठसर्प- पावा ६  
४, १४४.

पी(ठ-क>)ठिका- -काम् अप ५,  
४, ४.

पीठिका-व्यञ्जन-छत्र-शस्त्र-

कीलक-मण्डल- -लौ अप ६४,  
६, ५.

a) =सुरा-। b) तु. पागम.। c) =[विष्टमयी-] रात्रि-प्रतिष्ठति-। d) उप. भावाऽधिकरणे प्र.।  
e) =पात्री-। f) ष्यमनीम् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. संस्कर्ता, हिपि. च)। g) सप्र. आमिष्ट ३, ५, ७ : ९  
वौपि १, ६ : ४ दारुपात्रीम् इति पाठे.। h) विप. (२अप-). i) ष्टोर्ध्वप<sup>०</sup> इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सप्र.  
वौश्रौ.)। पिष्टसंयवनीम् इति R.। j) नाप. (चकी इति नभा.)। k) व्यप.। व्यु. ?। l) वावि. =विष्टप- [तु.  
पाठे.]। व्यु. पागम. द्र.। m) सपा. वाघ १७, ५ शेष २८३ हिघ २, ४, ४० विष्टपम् इति पाठे.। n) =पीठिका-  
o) वैप १ द्र.। p) अन्तरिक्ष-नामन्-। q) मलो. कस.।

पीठो(ठ-उ)पहित-पाद-दः विध  
 ३०, १७; -दाः विध ८१, १४.  
 ✓पीड्, लृ<sup>१</sup> पाधा. जुरा. उभ. अव-  
 गाहने, पीडयते अप ५३, ४, ४;  
 ५७, १, ५; ६३, ३, ४; पीडयति  
 आशि १, ३; पीडयेत् अप २२,  
 ८, १××; शंघ.  
 पीडयते अप ४, ६, २××; विध;  
 पीडयन्ते अप ५१, ४, १××.  
 पीडक<sup>१</sup>-कः अप २२, १०, १; -के  
 अप २२, ७, ३; -केन अप २२,  
 ८, १.  
 पीड, क<sup>१</sup>न-नम् अप २२, ७, ५;  
 ७०<sup>३</sup>, ११, २८; ऋप्रा<sup>१</sup> १४, ११;  
 १७; २९.  
 पीडयत् -यन् वैगृ ५, १३ : १७.  
 पीडयित्वा आमिगृ २, ६, २ : २३;  
 ३, ४, ४ : १९; ८, १ : २८;  
 वौगृ.  
 पीडा- पाग ३, ३, १०४; ४, २, ८६<sup>०</sup>;  
 -डा अप ५४, २, १; ६४, २, १०;  
 ३, १; -डाम् वैश्रौ १८, १ : ४;  
 अप ७१, १३, १; १६, ४; -डासु  
 दंवि २, १.  
 पीडा-कर- रम् अप ७१, १५,  
 ९; विध ५, ११०.  
 पीडा-कृत- -ते गौघ १३, १०.  
 पीडा-वत्- पा ४, २, ८६.  
 पीडित- -तः अप ७१, ६, ३; शौच  
 १, ४३; -तम् याशि २, ८०;  
 -ताः पाशि २९; माशि ४, ८;  
 नाशि २, ८, ३१.  
 पीडिता(त-अ)घ<sup>१</sup>- -ये अप २४,  
 ५, २.

पीड्यमान- -नः अप ४, १, २१;  
 या १४, ६<sup>१</sup>; -नाः अप ३१,  
 १, १; विध ४३, ३५; ४३; -ने  
 अप १, ६, ४.  
 रपीत- ✓पा (पाने) द्र.  
 रपीत, ता<sup>१</sup>- पाग ३, १, १३; ५, ४,  
 २९<sup>१</sup>; -तः अप ५०, ६, १; २;  
 याशि २, १<sup>३</sup>; -तम् अप ७०,  
 १०, १; २; अशां ६, २; -ता  
 अप २१, ६, २; ५८<sup>३</sup>, ४, १५;  
 -ताः अप ५८, १, ८; ९; ६२,  
 १, ४; -तान् अप ६३, १, २;  
 -ते अप ५०, ५, ५; ६३, ४, ५;  
 -तेन अप ५८<sup>३</sup>, २, ५.  
 पीत-क, का- पा ५, ४, २९; पावा  
 ४, २, २; -कः अप ५३, ४, ३;  
 ५४, १, ३; ५; -कम् अप ७१,  
 १६, २; नाशि १, ४, २; -का  
 अप ५८<sup>३</sup>, ४, १४; -काः कप्र  
 १, २, २; -कौ आमिगृ २, ५,  
 १ : १०; जैगृ २, ९ : ५.  
 पीत-औम<sup>१</sup>- -मम् शंघ ११६ : ३.  
 पीत-मण्डल<sup>१</sup>- -ले अप ६३, १, ९.  
 पीत-मृत्ति(का>)क<sup>१</sup>- -कम् वैश्रौ  
 १२, ४ : ३;  
 रपीत-रक्त<sup>१</sup>- -क्तः अप ५२, ९, १;  
 -क्ताः अप ५२, ८, ५; -कौ  
 अप ५२, ९, १.  
 रपीत-रक्त<sup>१</sup>- -क्ते अशां ६, ५.  
 रपीत-रक्त-सि (त >) ता- -ताः  
 अप २१, ६, ४.  
 पीत-वर्ण<sup>१</sup>- -र्णः माशि १, १४.  
 पीत-वस्त्र- -स्त्रैः अप ७०<sup>३</sup>, ७,  
 १७; ७१, ११, ४.

पीत-वासस्<sup>१</sup>- -ससम् विध १, ४२.  
 पीत-स्तम्ब<sup>१</sup>- (> श्व-क)  
 पीता(त-अ)घ<sup>१</sup>- -घाः अप ५२,  
 १६, १.  
 पीता(त-अ)घ<sup>१</sup>- -अम् आमिगृ २,  
 ५, ६ : ९.  
 पीता(त-अ)म्बर-धर- -रम् वैगृ ४,  
 ११ : ४.  
 ✓पीताय पा ३, १, १३.  
 पीता( त-अ )रुण-प्र( भा > )म-  
 -भाः अप ६४, ७, ८; -मान्  
 अप ६८, १, १३.  
 पीत-दारु<sup>१</sup>- (> पैतदारव- पा.)  
 पाग ४, ३, १५४<sup>१</sup>.  
 पीत-द्रु<sup>१</sup>- -फि ३७.  
 पीतस्तम्ब- (> श्व-क-) रपीत-  
 टि. द्र.  
 पीति- ✓पा (पाने) द्र.  
 पीतु- पाउ १, ७१.  
 पीतु-दारु<sup>१</sup>- > पैतदारव- -वान्  
 काश्रौ ३०; -वैण हिश्रौ १८,  
 ३, ३; -वैः काश्रौ ५, ४, १४;  
 -वौ काश्रौ २०, ४, १८.  
 पैतदारवा(व-अ)दि- -दि  
 काश्रौ १८, ४, ३.  
 पीतु-द्रु-> पैतद्रव- -वौ शाश्रौ १६,  
 ३, ३; १६, १२, ४.  
 पीत्वा, पीत्वी ✓पा (पाने) द्र.  
 पीथ- पाउ २, ७.  
 रपीन- ✓पि, पी द्र.  
 रपीन- (> न-र-) रपान- टि. द्र.  
 पीप- (> पीप्य-) दीप- टि. द्र.  
 पीपिवस्, प्याना- ✓पि पी द्र.  
 पीवस्- पीवस्- द्र.

a) पा ७, ४, ३ परामृष्टः द्र. | b) =मन्थनोपकरण- | c) ऋप्रा. पाठः | d) =स्वरदोष-विशेष- |  
 e) तु. पागम. | अर्थः ? | f) विप. | वस. | g) =वर्ण-विशेष-, तद्वत्- | व्यु. ? | h) पीत-, स्तम्ब- इति  
 भारुडा. प्रभृ.; पीतस्तम्ब- इति पाकाः. | i) =पाताल-विशेष- | वस. | j) विप. | तस. (पा २, १, ६९) |  
 k) दस. | l) कस. | m) =पीतु-दारु- | n) कपीत-, दारु- इति पाकाः. | o) वैप १ द्र.

१/पीय<sup>१</sup>, पायति अप ४८, २८;  
या ३, २०<sup>b</sup>; माशि १४.

पीयु<sup>०</sup>- पाठ २, ३६.

पीयमान- √पा (पाने) द्रः

पीयूक्षा<sup>१</sup>- पाग ४, २, ८०<sup>०</sup>; ३, १५२.

पैयूक्ष- पा ४, ३, १५२.

पीयूक्षा-वण- पा ८, ४, ५.

पीयूक्षिल- पा ४, २, ८०.

पीयूप<sup>०</sup>- पाठ ४, ७६; पाग ४, २,  
८०<sup>०</sup>. -१पः आपथ्रौ १६, ३२,

४<sup>१</sup>; वैश्रौ; -पम् निस् १, २:

२७<sup>१</sup>; कौग ३, ५, ८; शांठ ३,

१०, ३; कौसू १२, १५; उनिस्

७: २५<sup>१</sup>.

पीयूषिल- पा ४, २, ८०.

पीरिठ<sup>१</sup>- ठम् अप ४८, ९८<sup>१</sup>.

१/पील् णघा. भ्वा. पर. प्रतिष्टम्भे.

पीला<sup>१</sup>- पाग ४, १, १५१<sup>१</sup>.

पैल- पा ४, १, ११८; पाग २, ४,

५९; -लः कौग २, ५, ६; अ- ४३,

४, १७<sup>१</sup>; -लाः वौश्रौप्र ३: ४.

पैल-पूयापर्णोय- पाग ६, २; ३७.

पैला(ल-आ)दि- दिषु पावा १,

२, ४१.

पैलेय- पा ४, १, ११८.

पैल्य- पा ४, १, १५१.

पीलु<sup>१</sup>- पाठभो २, १, १०५; पाग ४,

१, ८६<sup>k</sup>; ५, २, २४; पा, पावाग

६, ३, १२०; -लु जाश्रौ १२,

१६, ११<sup>१</sup>.

पैलव- पा ४, १, ८६; पाग ५,  
१, ९७.

पीलु-कुण- पा ५, २, २४; पाग ४,  
१, ८६<sup>k</sup>.

पैलुकुण- पा ४, १, ८६.

पीलु-मूल- (> पैलूमूल- पा, पावा.)  
पाग, पावाग<sup>१</sup> ५, १, ९७.

पीलु-वह- पा, पावा ६; ३, १२०.

१/पील्व<sup>०</sup>- ल्वयोः माश्रौ ६, १, ५, ३८<sup>m</sup>.

१/पीव्<sup>०</sup> पाघा. भ्वा. पर. स्वौल्ये.

१/पीव्, व्, ज्- -वः अत्र ९, ७;

-वसि वंवि २, ४; -वः शांश्रौ

१२, १८, १९; हिश्रौ १२, ६, ६<sup>१</sup>.

१/पीवस<sup>०</sup>- सा आश्रौ ३, ८, १;

आग ३, ८, ९; आमिग ३, ५, ७:

२४; वौपि १, ७: १; हिपि ६: १३.

१/पीवो-जज्ञ<sup>०</sup>- ज्ञान् आश्रौ ३,

८, १; ८ १०, १; शांश्रौ २, २३,

११; आपथ्रौ:

१/पीवो(वस्-उ)पवसन<sup>०</sup>-

-नानाम ऋप्रा २, ७३; गुप्रा

३, १४.

पीवन्-, वर-, श्री- √पि, पी द्र.

पुंश्चाल > ली<sup>०</sup>- -०लि वाश्रौ ३, २,

५, ३२; -ली आश्रौ २१, १७,

१८; १९, ५०; ६०; वाश्रौ; -लीम

वैग ५, ९: १३; -ल्याम वौश्रौ

२ ५: २०<sup>१</sup>; -ल्यै आपथ्रौ

२६, १७, १९.

पौश्चल्य<sup>१</sup>- -यः आपथ्रौ २०,

३, ९; १२; वौश्रौ.

पुंश्चली-ग्राम- मस्य द्राश्रौ ११,

३, १०; लाश्रौ ४, ३, ११.

पुंश्चली-दशन-क्षत- -तः शंघ ४१२.

पुंश्चली-दाम्भिक-चिकित्सक-लुब्धक-

कूरो(र-उ)प्रो(प्र-उ)च्छिष्टभो-

जिन्- -जिनाम् विघ ५१, १०.

१पुंश्चल्य<sup>०</sup>- ल्यः हिश्रौ<sup>१</sup> १६, ६, २३;

२४; -ल्य् गुप्रा ५, ४३<sup>१</sup>.

पुंश्चल्य-ब्रह्मचारिन्- -रिणौ काश्रौ

१३, ३, ८<sup>१</sup>.

पुंश्चल्य-वा(क्य >)क्या<sup>०</sup>- -क्या

वौश्रौ १८, २५: ६; ८.

२पुंश्चल्य<sup>०</sup>- ल्यः काश्रौ २०, १, ३७.

१/पुंस<sup>१</sup> पाघा. जुरा. पर. अभिवर्धने.

पुंस<sup>०</sup>- पाठ ४, १७८; पाग ५; ४,

१५१; पुंसः आपथ्रौ ८, ६, २;

वौश्रौ २०, १: ६२<sup>१</sup>; भाश्रौ;

शांठ १, ११, ६<sup>१</sup>; या ३, ४<sup>३</sup>;

५<sup>१</sup>क<sup>१</sup>; २१; १४, २०<sup>१</sup>क<sup>१</sup>; पुंसा

आग १, १४, २; पाग १, १४, ३;

वैग; पुंसाम् शांश्रौ १४, ३९, ४;

आपमं १, ११, ४<sup>१</sup>; आग: पुंसि

माश्रौ ५, २, ९, २; वाधूश्रौ ४,

३०: ३; ५; कौग; पा २, ४, २९;

३१xx; १/पुंसे आपथ्रौ ९, २, ३;

भाश्रौ ९, ३, १; हिश्रौ; पुंस्यः

कौग १, ७, ३<sup>१</sup>; कौसू ७२, १२;

पा ६, २, १३२.

पुंमी<sup>०</sup>- -स्याः कौसू ३५, ८.

a) या ४. २५ परानृष्टः द्र. । b) पामे. वैप १; १८०२ m द्र. । c) वैप १ द्र. । d) = वृक्ष-  
भेद- । व्यु. ? । e) अर्थः ? । f) पीयूप- इति पाका. । g) = अन्तरिक्ष- । व्यु. ? । h) व्यप. ।  
व्यु. ? । i) तु. पागम. । j) वैप १, २०२० r द्र. । k) पीलु-, कुल- इति पाका. । पीलुकुण-  
इति भाण्ड. प्रथ. । l) पीलु, मूल इति [पत्रे] भाण्ड. । m) पामे. वैप १, २०२१ d द्र. ।  
n) वैप १, २०२१ h द्र. । o) पामे q टि. द्र. । p) अपन्याये ढक् प्र. । q) लुः इति पाठः ? वनि. शोषः  
(तु. सप्र. आपथ्रौ २१, १९, ५; ६ पुंश्चली इति पामे.) । r) तु. चौसं. । पुं इति अच्यु. । s) विप. । वस. ।  
t) नाम पुं. । = स्त्रीलोलुप- इति भाण्ड. । व्यु. ? । u) या. ९, १५ परानृष्टः द्र. । v) सपा. पुंसः <> पुंस्यः  
इति पामे. । w) = पुंसान्ता- ।



पौस्न-पा ४, १, ८७; -स्नम्  
अत्र ६, ११३; ७, ८.

पौस्व<sup>२</sup>- -स्यम् ऋप्रा १३,  
२४; -स्या आश्रौ ८, १, २;  
-स्यानि<sup>०</sup> अप ४८, १०३; निघ  
२, ९; -स्ये<sup>०</sup> अप ४८,  
१०५; निघ २, १७; या ६,  
१४; -स्येन काट ३१, २;  
-स्येभिः या ६, ७.

पुंयुक्त- -क्तम् मीस् ६, १, ६.

पुंयोग- -गात् पा ४, १, ४८; पावा  
४, २, १३.

पुंयोग-प्रकरण- -णे पावा ४, १,  
३६.

पुंलिङ्ग<sup>१</sup>- -ङ्गः आमिष्ट २, ४, १२;  
६; -ङ्गैः कौस् ६०, १५.

पुंलिङ्ग-पात्र-> -त्र-चयने(न-इ)  
एका-केशवपन-वर्जम् आमिष्ट  
३, ७, २१:७<sup>०</sup>; वौपि १, १७:३६.

पुंलिङ्ग-वपन-वर्जम् हिपि १२:  
१३.

पुंलिङ्ग<sup>१</sup>- -ङ्गानि माश्रौ १, ७, ४,  
३.

२पुंलिङ्ग- -ङ्गम् जैष्ट १, ५:३.

पुंलिङ्ग-क- -काः यासि २, ६.

पुंलिङ्ग-निर्देश- -शाः पावा ४,  
१, १२८.

पुं-वचन<sup>०</sup>- -नानि अप्रा २, १, १५.

पुं-वत् आश्रौ ३, २, १२; शाश्रौ ६,  
१, १३; काश्रौ; पा १, २, ६६;  
६, ३, २४; ४२; ७, १, ७४.

पुं-वद्-भाव- -वस्य पावा ४, २,  
३८; -वात् पावा ४, १, १४७;

६, ३, ४१; -वे पावा ६, ३, ३३.

पुं-वद्-भाव-प्रतिषेध- -घः  
पावा २, २, २९.

पुं-वद्-भाव-प्रतिषेधा(घ-अ)  
र्थ- -र्थम् पावा ४, १, १४७;  
१५०.

पुं-वद्-भाव-रभाव-टिलोप-  
यणादिपरा(र-अ)र्थ- -र्थम्  
पावा ६, ४, १५५.

पुं-वद्-वचन- -नम् पावा १, २,  
४८; ५, २, ५२x४; -नात् पावा  
५, ४, १५६.

पुं-व(त्स>)स्ता<sup>०</sup>- -त्साम् काश्रौ  
४, १४, १; वैश्रौ १३; २:६.

पुं-विषय- -यम् मीस् ९, १, ४५.

१पुं-व्यञ्जन<sup>२</sup>- -नानि आपश्रौ ८, ६,  
२; माश्रौ ८, ६, ५; हिश्रौ ५, २,  
३०.

२पुं-व्यञ्जन<sup>०</sup>- -नः वैश्रौ ८, १०:६.

पुं-शब्द- -न्देन या १४, २०<sup>५</sup>;  
पावा ४, १, ४८.

पुं-शब्दा(व्द-अ)तिदेश- -शाः  
पावा ६, ३, ३३.

पुं-श-छगला<sup>०</sup>- -लाम् आपश्रौ १५,  
१, ६; माश्रौ ११, १, ९<sup>१</sup>.

पुं-सवन<sup>१</sup>- -नम् आप १, १३, १<sup>६</sup>;  
३; शांष्ट १, २०, १<sup>६</sup>; पाट १,  
१४, १; आमिष्ट; -नस्य गोष्ट २,  
६, १; -नानि कौस् ३५, १.

पुं-सवन-वत् पाट १, १५, २.

पुं-सवन-सीमन्त- -न्तयोः वैष्ट  
६, ३:६.

पुं-सवना(न-आ)दि- -दिषु अप

४४, १, ५.

पुं-सवना(न-अ)नवलोभन- -ने  
वैष्ट ६३:७.

पुं-सा(सा-अ)नुज- -जः पावा ६, ३,  
३.

पुं-सुव(त्>)ती- -ती कौष्ट १, १०,  
१०<sup>१</sup>.

पुं-सुवन<sup>३</sup>- -नम् आपमं २, ११,  
१४<sup>६</sup>; कौष्ट १, १२, ७.

पुं-सू- -स्वोः आपट ६, ११.

पुं-सू-कृति- -त्या वाध २०, २४<sup>१</sup>.

पुं-स्ता- पा ५, १, ११९.

पुं-स्त्री- -स्त्रियः आज्यो १३, ४.

पुं-स्त्व- पावा ५, १, ११९; -त्वम्  
कप्र ३, १, १३; ऋअ २, ८, १.

पुं-स्त्वो(त्व-उ)पघात-कारिन्-  
-री विध ५, ११९.

पुं-सू-प्रजनन<sup>०</sup>- -नस्य अप ४८,  
१२३; या ३, २१.

पुं-सू-प्रवाद- -दे ऋप्रा ४, ४२.

पुं-ख्यान- -ने पावा २, ४, ५४.

पुं-गव- -वैः लाश्रौ १०, १७, ५.

पुं-छगला<sup>०</sup>- -लयां हिश्रौ २४, १,  
१०.

पुं-नक्षत्र- -त्रे कौस् ३५, २.

पुं-नद- -दः आपश्रौ १८, १३, ३.

पुं-नपुंसक-तस्(ः)पावा १, २, ७२.

पुं-नामधेय<sup>०</sup>- -याः निस् ८, ९;  
२१; -ये आमिष्ट १; १, १:५;  
भाट १, १:१२; हिष्ट १, १, ५;

कौस् ३३, २०.

१पुं-नामन्<sup>०</sup>- -मानि वैष्ट २, ५:३;  
-मन्तः वौश्रौ १२, ८:१०<sup>३</sup>;

a) वैप १ द्र. । b) वल-नामन्- । c) = संग्राम- । d) विप. । वस. । e) पुल्लिङ्गः

पात्रचयेष्टकाः केशः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. वौपि.) । f) पसः । g) कास. उप. करणे क्त ।

h) ष्दे इति ल. । i) पुच्छग<sup>०</sup> इति पाठः ? यनि. शोधः । j) = संस्कार-भेद- । वैप १ द्र. । k) सपा.

पुंस<sup>०</sup> <> पुंसु इति पाठे. । l) सपा. पुंसवती <> पुंसवती इति पाठे. । m) = पुंसवन- ।

n) = १पुं-व्यञ्जन- ।

कौट १, ८, १९<sup>२</sup>; शां २, १३, ६; -मिन् वैगृ २, ९ : २; ३, १० : ३xx.  
 पुंसुहुस्- हुसोः पावा ८, ३, ४१.  
 पुंस<sup>१</sup> > पुंस-वत् माश्रौ ५, २, ९, २.  
 पुंस-व(त्) > ती- ती शां १, १६, ११९.  
 पुंससृष्टा<sup>२</sup> वाश्रौ ३, ४, ३, १७.  
 पुक्- (> पुक्त्- पा.) पाग ४, २, ८०.  
 पुक्कार<sup>३</sup>- राणाम् चात्र ४१ : २३.  
 पुक्क<sup>४</sup>- पाठमो २, २, ५०; पाग २, ४, ३१.  
 पुक्क<sup>५</sup>- पाठमो २, २, ८४; पाग २, ४, ३१; -च्छः हिश्रौ १४, ३, १४; वौश्रु ८ : १४; -च्छस् शाश्रौ ४, १६, ८; १७, १३, ५<sup>३</sup>कं; काश्रौ; -च्छस् वौश्रौ १०, २४ : ५; वौश्रु ९ : ४xx;  
 -च्छत् काश्रौ १७, ३, २२; १८, ४, २२; ५, ६; आपश्रौ; -च्छानि अप ६७, ४, ३; -च्छे काश्रौ १८, ३, २; आपश्रौ; -च्छेन वाश्रौ ३, २, ५, २९; वैताश्रौ ३४, ११; निस्; -च्छेषु हिश्रौ ११, ८, ३१.  
 पुक्क-काण्ड- ण्डम् आपश्रौ २१, १८, ३; -ण्डात् काश्रौ २५, ६, २; -ण्डेन आपश्रौ २२, १९, ८; हिश्रौ १६, ६, २७.  
 पुक्क-त्सु(ः) वाश्रौ २, १, ५, ४.  
 पुक्क-देश- शे आपश्रु १७, ७.  
 पुक्क-धि<sup>६</sup>- धौ अप ४८, ११६<sup>३</sup>.

पुक्क-पार्श्व- श्वयोः आपश्रु १०, ३; १६, १३xx; वौश्रु.  
 पुक्क-योग- > णि(न्) > नी- नी अप ५८<sup>३</sup>, ४, १४.  
 पुक्क-संधि- धौ काश्रौ १७, १२, १९; २०; वौश्रौ १०, २८ : ६; ४६ : १९.  
 पुक्का(च्छ-त्र)प्र- प्रे आपश्रु १९, १३; हिश्रु ६, ३६.  
 पुक्का(च्छ-त्र)न्त- न्ते वैश्रौ १८, १४ : ४३.  
 पुक्का(च्छ-त्र)प्यय- यम् आपश्रौ १६, २१, १२; माश्रौ ६, १, ६, १२; २, ४, २; वाश्रौ; -ययोः वौश्रु ९ : ५; -ये वैश्रौ १८, १६ : ८२; आपश्रु.  
 पुक्का(च्छ-त्र)वकाश- शेन अप ५८<sup>३</sup>, ३, ८.  
 √पुक्चि पा ३, १, २०.  
 पुक्क्यो(च्छ-उ)प्लव- वे वौश्रौ १०, २४ : ५.  
 पुक्ज<sup>७</sup>- > पुक्जी √कृ > कृत्वा वौश्रौ १४, २२ : ८.  
 पुक्जिष्ठ<sup>८</sup>- पा ८, ३, ९७; -ष्ठाः आश्रौ १०, ७, ८; -ष्टेभ्यः शुप्रा ५, ३७<sup>३</sup>कं.  
 √पुट् पाघा. तुदा. पर. संश्लेषयोः सुरा. पर. अरुपीभावे, उभ. मापायां संसर्गे च.  
 पुट<sup>९</sup>- पाग ४, १, ४१; -ट् वौश्रौ १०, ४८ : २; १९, ४ : २५; -टेन विघ ९४, १३.  
 पुटो- पा ४, १, ४१.  
 पुटा(ट-अ)पुट-> पु(ट-क >)

टिका- पावा, पावाग २, १, ६९.  
 २पुट- पाग ४, १, ११०<sup>३</sup>; २, ८०<sup>३</sup>.  
 पौटायन- पा ४, १, ११०.  
 पुटिन्- पा ४, २, ८०.  
 पुटक- (> ष्टकिन् > णि- पा.) पाग ५, २, १३५.  
 √पुट् पाघा. सुरा. पर. अरुपीभावे.  
 √पुट् पाघा. तुदा. पर. उत्सर्गे.  
 √पुण् पाघा. तुदा. पर. कर्मणि शुभे.  
 √पुण्ड्र पाघा. सुरा. उभ. मापायाम्.  
 √पुण्ड्र √मुण्ड्र द.  
 पुण्डरि-सजा<sup>१०</sup>- -जाम् वौश्रौ १२, १७ : १२<sup>३</sup>कं.  
 पुण्डरितजिन्- -जिन् वौश्रौ १२, १७ : १३; २२, २० : ५.  
 पुण्डरीक<sup>११</sup>- पाठ ४, २०; पाग २, १, ५६; ५, ३, १०७; -कम् अप ७०<sup>३</sup>, १०, २; अत्र १०, ११<sup>३</sup>कं; -काणि काश्रौ १५, ८, ५; वौश्रौ २२, २० : ६; -कान् वाश्रौ ३, ३, ४, ११.  
 पुण्डरीक- पा ५, ३, १०७.  
 पुण्डरीक-वन- नानि अप ६८, १, ३०.  
 पुण्डरीका(क-अ)रु<sup>१२</sup>- -क्षम् अप ४०, २, ३.  
 पुण्डरीक-वत्- वान्<sup>१३</sup> वौश्रौ १०, २४ : १९; वैश्रौ १८, १५ : ६.  
 पुण्डरीका(क-अ)रु- -क्ष विघ ९८, ९७; -क्षम् विघ १, ४४; ६०.  
 पुण्ड्र- पाठ २, १३.  
 २पुण्ड्र<sup>१४</sup>- ण्डम् वैश्रौ २, ६ : १२.

a) णामस्य इति पाठः? यनि. शोधः ( तु. शां. )। b) = पुंस-। c) पामे. पृ १५८५। द.। d) पाठः? पुंसस्य (ष्ट>)ष्ठा- > -ष्ठाः इति शोधः। e) अर्थः व्यु. च?। = दान- इति पागम.। f) व्यप.। व्यु. ?। g) = चाणाऽप्रभाग-। व्यु. ?। h) वैप १ द.। i) = सन्तुह-। व्यु. ?। j) हु. BPG.। k) नाप.। व्यु. ?। l) अर्थः ?। m) पामे. वैप २, २०-२३ k द.। n) विप.। वस.। o) वैप ३, ५१० n द.।

३पुण्ड्र<sup>a</sup> - ष्टः शांश्री १५, २६, १.  
 ४पुण्ड्र<sup>b</sup> - ष्टः वौध १, १, ३०.  
 ५पुण्ड्र<sup>c</sup> - ष्टः- पाग ५, ४, ३.  
 पुण्य, ण्या<sup>d</sup> - पाठ ५, १५; पाग ५,  
 ४, २९<sup>e</sup>; -ण्यः आश्री १०,  
 २, २; आपश्री ५, २५, १०;  
 २२, १४, १८; २०, १; हिश्री;  
 -ण्यम् वौश्री ३, ३० : ३१×४;  
 सु; या ९, २; पा ६, २, १५२;  
 -ण्यस्य वौश्री २६, १० : २४;  
 आपध; -ण्या वौश्री २, १५, ६;  
 २०, १६:५०; गो; -ण्याः शांश्री  
 १६, ९, ७१; आपश्री ४, १५, ४१;  
 वौश्री; -१ण्यान् वौश्री १६, २७:  
 ३; हिश्री १७, ६, २६; गो २, ९;  
 -ण्यानाम् अश्र १५, १३१;  
 -ण्यानि भाग १, १२<sup>f</sup>: ८; हिश्र  
 १, २३, ११; अश्र ४, १, २४; ४२,  
 २, ४; -ण्याभिः अश्र १, ४२, ६;  
 -१ण्याम् भाग २, १३, ६; गो  
 २, ७; अश्र ७, ११५; -१ण्याय  
 आपश्री ४, ११, ३; ५, ११, ५;  
 वौश्री; -ण्ये शांश्री २, १, ८; ४,  
 १७, ३, ५, २, ४; आपश्री; -ण्येन  
 शांश्री १६, ९, ७१; -ण्येषु अश्र  
 ३१, ५, २; -ण्यैः आश्री ९, ३,  
 २०; भाश्री ५, ३, २.  
 पौण्य<sup>g</sup> - ण्यः काश्री २३, २, ५.  
 पुण्य-क- पा ५, ४, २९.  
 १पुण्य-कर्मन्- र्मसु वौध ४, ७, १.  
 २पुण्य-कर्मन्- र्मणाम् अश्र ५८<sup>h</sup>,  
 ३, ११; -र्मा वौध ४, ८, १२;  
 उस् ८, ३६.  
 पुण्य-कृत्- पा ३, २, ८९; -कृत्  
 वौश्री १८, ४८ : ११; वौध ४,

८, १२; -कृतः आपश्री २०, २२,  
 ९; हिश्री; या २, १४; -कृतौ  
 या १२ १; -कृद्भिः शांश्री १६,  
 १, २५; या २, १४<sup>i</sup>.  
 पुण्यकृत्-तम- -मम् वैश्र ३,  
 २१ : ८.  
 पुण्य-क्रिया- -यासु आपध १, २९,  
 ५; हिध १, ७, ६१.  
 १पुण्य-गन्ध- -गन्ध जैश्र १, १८ :  
 ९; ११; -गन्धः अश्र १, ४६, २;  
 -गन्धाः आमिश्र ३, ४, २ : १६;  
 वौषि ३, २, ३; गौषि १, २, ४१.  
 १पुण्य-जन- -नाः काश्र २६, ८;  
 -नेभ्यः कौस् ७३, ५.  
 पुण्य-तम- -मम् शंघ १००; -मात्  
 गौध २०, १०; -मे-आमिश्र २,  
 ५, ४ : ३.  
 पुण्य-नदी- -द्याम् वैश्र ७, ६ : १०.  
 पुण्य-नामधेय- -यम् वाश्री ३, ४,  
 १, २; हिश्री १४, १, ३.  
 पुण्य-नामन्- -म आपश्री २०, १,  
 २; वौध ४, ८, ४; -मानौ वौश्री  
 १५, १ : ६; ९; वाधूश्री ३, ६९ :  
 २२; २३; २६; -मः वौश्री १२,  
 १५ : ९.  
 पुण्य-फल- -लम् अश्र १२, १, ८;  
 वाध २८, २०; विध ५१, ७६;  
 -लेषु आपध २, १४, १८; हिध  
 २, ३, २८.  
 पुण्य-रात्र- पा ५, ४, ८७.  
 पुण्य(ण्य-क्र)क्ष- -क्षे वैध २, १, ३.  
 पुण्य-लक्ष्मी(क>)का- -काम्  
 भाश्र १, ११ : १६१.  
 १पुण्य-लोक- -के वौषि २, १०, ५.  
 १पुण्य-लोक- -काः आपश्री २०,

२१, ८; २२, ९; हिश्री १४, ४,  
 ५४.  
 पुण्य-वत्- -वान् वाध १६, २८.  
 पुण्य-शरीर- -राणि वैश्र ५; ८ : १४.  
 पुण्य-सम- -पाग २, १, १७; -मम्  
 वौश्री १४, १३ : ३१; वैताश्री  
 ३१, ५.  
 पुण्य-हृद्- -दात् वाध १५, २०.  
 पुण्या(ण्य-अ)ह- -हम् वैश्री १, ४:  
 ११; कौश्र १, १०, ९; शांश्र १,  
 १६, १०; आमिश्र १, १, १ : ६;  
 ४ : २८; ४३×४; वौश्र; -हयोः  
 आपश्री २२, २८, १; हिश्री २३,  
 ४, ४१; -हानि वौश्री १३, १ :  
 ५; -हे काश्री ७, १, २५; काठश्री  
 ७२<sup>j</sup>; वौश्री; -हेत् वैश्र १, ७ : १२.  
 पुण्याह-काल- -लः भाग ३,  
 १७ : २.  
 पुण्याह-वाचन- पावा, पावाग  
 ५, १, १११.  
 पुण्याह-समृद्धि- -द्धिः आमिश्र  
 २, ३, ४ : ५.  
 पुण्याहा(ह-अ)दि- -दीनि  
 आमिश्र ३, ११, २ : २०; अश्र  
 १८<sup>k</sup>, १, २.  
 पुण्याहादि-विवाचन- -नम्  
 आमिश्र २, ३, ३ : १.  
 १पुण्याहा(ह-अ)न्त- -न्ते वैश्र  
 ३, ३ : १.  
 २पुण्याहा(ह-अ)न्त- -न्तम्  
 वैश्र ३, १२ : ६.  
 पुण्याहिन्- -ही अश्र १, २३, १;  
 ४; २४, १; ४; २५, १; ५.  
 पुण्या(ण्य-अ)हन्- -हनी लाश्री  
 ९, ३, ९१.

a) वैप ३, ५१० q द्र. । b) =देश-विशेष- । व्यु. ? । c) =इष्ट-विशेष- इति पागम. । d) वैप १  
 द्र. । e) तु. पागम. । f) वैप २, ३३६. द्र. । g) विप. । वस. । h) वैप १, १९९९ k द्र. । समास-  
 विशेषः पागम. द्र. ।

पुण्यो(प्य-उ)क- -कम् वागृ १५,  
 १७; कागृ १४, ११; २८, ४; मागृ  
 १, ७, ५; १४, ६; -कानि आपगृ  
 २, १३; वागृ १, १, २२.  
 १?पुण्यगञ्च<sup>१</sup> अप १, २६, ५.  
 पुत्र- पाठभो- २, २, १३४.  
 पुत्तलिका<sup>२</sup> -काम् अप ३६, ११, १.  
 पुत्तिका<sup>३</sup> - पाठभो २, २, ३७.  
 पौत्तिक<sup>४</sup> -कम् वौश्रौ २६, ६: १७.  
 पुत्र<sup>५</sup> - पाठ ४, १६५; पाग ४, १, ३५;  
 ४१<sup>६</sup>; १००; १०४; ५, ४, २९;  
 -०त्र शांश्रौ १६, २९, ८; वौश्रौ;  
 या ५, २५; -त्र: आश्रौ २, २, १३;  
 ३, १४; ८, १४, ४; शांश्रौ; आपश्रौ  
 १८, १६, १५<sup>७</sup>; १७, ११; हिश्रौ  
 १३, ६, १०<sup>८</sup>; आपमं १, १३,  
 २<sup>९</sup>; २, १३, १२<sup>१०</sup>; आगृ ४, ३,  
 १८; शंघे ८६<sup>११</sup>; या २, ११<sup>१२</sup>; १३;  
 २४<sup>१३</sup>; पा ६, २, १३२;  
 -त्रम् ऋश्रौ २, १०, ४<sup>१४</sup>; ३,  
 ९, ३; शांश्रौ ९, २८, ३<sup>१५</sup>; काश्रौ;  
 ऋश्रौ १, १३, ६<sup>१६</sup>; १७, ६<sup>१७</sup>;  
 ऋश्रागृ १, १९, ६<sup>१८</sup>; २५, ८<sup>१९</sup>;  
 आमिगृ २, १, ४: १५<sup>२०</sup>; मागृ २,  
 १८, ४<sup>२१</sup>; हिगृ २, ४, २<sup>२२</sup>; कौसू  
 ८८, २४<sup>२३</sup>; या २, १३; २७; ३,  
 ६<sup>२४</sup>; -त्रयो: काठश्रौ १९;  
 माश्रौ ५, १, ६, ४१; कौसू  
 १११, ६; -त्रस्य शांश्रौ २,  
 १२, १०; १५, १७, १<sup>२५</sup>; काश्रौ;

हिघ १, ७, ४५<sup>२६</sup>; या ६, ६; पा,  
 पावा ८, ४, ४८; -त्रा कौसू ८१,  
 १९<sup>२७</sup>; -त्रा: आश्रौ ६, १०,  
 ७; शांश्रौ; आमिगृ १, ५, ३:  
 ५<sup>२८</sup>; या ३, ४; ११, १६; १७;  
 -०त्रा: शांश्रौ १५, २७, १<sup>२९</sup>;  
 -त्राणाम् आश्रौ २, ३, १३;  
 शांश्रौ १५, २५, १<sup>३०</sup>; आपश्रौ; या  
 ३, ४<sup>३१</sup>; -त्रात् अपरा ३, १, ७<sup>३२</sup>;  
 -त्रान् शांश्रौ १५, २५, १; २६,  
 १; २७, १; वौश्रौ; ऋश्रामं १,  
 १३, ३<sup>३३</sup>; २, २०, २४<sup>३४</sup>; मागृ २,  
 १३, ६<sup>३५</sup>; ऋश्रौ १, १९, ७<sup>३६</sup>; २,  
 १२, १०<sup>३७</sup>; या १२, ६; -त्राम्याम्  
 शांश्रौ ४, २०, १<sup>३८</sup>; -त्राय काश्रौ  
 १०, ९; ५; १५, ६, १०; आपश्रौ;  
 -ऋश्रास: आपश्रौ ६, १७, १०;  
 १४, १६, १; भाश्रौ; -०त्रास:  
 कौसू ६०, ३५<sup>३९</sup>; -त्रे शांश्रौ  
 १५, १७, १<sup>४०</sup>; काश्रौ १५, ६,  
 ११<sup>४१</sup>; वौश्रौ; पा ६, ३, २२;  
 -त्रेण शांश्रौ १५, १७, १<sup>४२</sup>;  
 वेगृ ६, २: ६; कौसू; -त्रेन्य:  
 ऋश्रामश्रौ ४, १५, १; ६, २५, ४;  
 वौश्रौ; -त्रेषु शंघे ३६८; विघ  
 २२, ४३; २४, ३; या १०, ७;  
 -त्रै: आश्रौ ३; १४, १२; काश्रौ  
 २५, ५, २९<sup>४३</sup>; आपश्रौ; या १,  
 १६<sup>४४</sup>; -त्रौ वौश्रौ १८, ४५:  
 १७; वैश्रौ २०, ३०: १; हिश्रौ.

पुत्री- पा ४, १, ४१; -त्रौ:  
 वाश्रौ २, १, ६, २०<sup>४५</sup>; वाघ १७,  
 २३; विघ ३२, ७.  
 पुत्रका- पावा ७, ३, ४५.  
 पुत्रिका- पावा ७, ३, ४५;  
 -का वाघ १७, १५; शंघे २९०;  
 विघ; -काम् गौघ २८, १८;  
 वृदे ४, ११०; -काया: कप्र २,  
 ७, १०; शंघे: २९५; या ३, ५.  
 पुत्रिका-पुत्र- -त्र:  
 शंघे २९१; विघ १५, ४; -त्रम्  
 वौघ २, २; १५; ३१; -त्रस्य  
 वौश्रौ २४, ३२: १०.  
 पुत्रिका-विधि- -भिना  
 विघ १५, ६.  
 पुत्रिका-सुत- -त:  
 कप्र २, ७, १२; शंघे २९०; वौघ  
 २, २, १६.  
 पौत्र<sup>६</sup> - पा ४, १, १०४; -त्र:  
 आश्रौ २, २, १३; आपश्रौ १०,  
 ११, ५<sup>७</sup>; वौश्रौ; -त्रम् आपमं  
 १, ४, ७<sup>८</sup>; ८<sup>९</sup>; आगृ १, १३,  
 ७<sup>१०</sup>; पागृ १, ५, ११<sup>११</sup>; आमिगृ  
 १, ५, २: ५१<sup>१२</sup>; ३, ११, २:  
 २२; कौसू ८८, २४<sup>१३</sup>; या ३,  
 ४; -त्रा: निसू १०, ९: २३; हिगृ;  
 -त्रान् जैश्रौका ८६; आपमं २,  
 २०, २४<sup>१४</sup>; आमिगृ; हिगृ २,  
 १२, १०<sup>१५</sup>; या १२, ६; -ऋश्राय  
 वौश्रौ १२, ८: ९; २०; -त्रेण.

a) वैष १ द्र. । b) नाप. । व्यु. ? । c) = मधुमक्षिका- । व्यु. ? । d) वज्र प्र. दसं. (पा ४, ३, ११९) । e) तु. पागम. । f) पामे. वैष १, २००८ j द्र. । g) ऋश्रौ इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. नै ४, ४, ५ आपश्रौ १८, १७, ११) । पृ ४६७ b अपि द्र. । h) पामे. वैष १, २०२६ a द्र. । i) पामे. पृ १२९८ m द्र. । j) पामे. वैष १, २०२५ f द्र. । k) पामे. वैष १, २०२६ b द्र. । l) पामे. पृ ८८३ n द्र. । m) पामे. वैष १, २०२५ o द्र. । n) पामे. वैष १, २०२६ d द्र. । o) लपा. पुत्रस्य <> पुत्रत्वस्य इति पामे. । p) पाठः ? तु. संस्कृतुः टि., आगृ ४, ३, १८ पुत्रः इति च । q) पुत्रान् इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. खि २, ११, ५ हिगृ १, १९, ७) । r) पामे. वैष १, २०२७ o द्र. । s) पामे. वैष २, ३ खं. पुत्रान् मंत्रा १, १, १२ टि. द्र. । t) वैष १, २०२७ b द्र. । u) विघ. (अप-आनन्द-). । v) पामे. वैष १, २०२७ f द्र. ।

कप्र २, ७, ५, ६; वाघ; -त्रेषु वा १०, ७; -त्रैः वौश्रौ ६, ३१: २२१.

पौत्र-द्वैहित्र- -त्रयोः विव १५, ४७.

पौत्र-प्रपौत्रक- -कैः कप्र २, ७, ७.

पौत्र-प्रभृति- -ति पा ४, १, १६२; -तेः पावा ४, १, १६२.

पौत्रप्रभृति-संज्ञा-करण- -णम् पावा ४, १, १६२.

पौत्रप्रभृति- ( ति-अ ) पे(क्षा>)ञ- -ञम् पावा ४, १, १६२.

पौत्र-प्रभृति- -स्युम् आपमं १, ४, ११; आमिष्ट १, ५, ३: २; वौग.

पौत्र-वत् विव १५, ४७.

पौत्रीय- -यम् आपश्रौ २१, २५, १२; वौश्रौ १७, १८: १११.

पौत्र्य- -त्र्यः माग २, ३२: ९; -त्र्यम् वौघ ३, ८, ३८.

पुत्र-क- -पा ५, ४, २९; -०क वृदे ४, ६०; -०काः वौश्रौ १८, २६: ८; वाघश्रौ ४, १०३: १०; गोश्र ३, २, ६; -०कौ वौश्रौ १८, ४५: १९.

पुत्र-काम, मा- -काम आपमं १, ११, १; काग ३०, ३; माग १, १४, १६; वाग १६, १; -मः आपश्रौ ३, ९, ४; माश्रौ; -मम् कागृ ४०: ३; गोपि २, ३, ३१; -मस्य आमिष्ट २, ४, ११: २; वृदे ८, ८१; -मा शंश्रौ ४, ५, ८; काश्रौ ४, १, २२; माश्रौ १, ३, ५, १६; -माः शंश्रौ १५, २७,

१; वौश्रौ १८, ४४: १७; गोश्र ४, ३, २७; -माम् द्राग ३, ५, ३०; -मायाः वैग ३, ९: ११; वृदे ८, ८२; -कामायै आपमं १, १२, ७; वौग; -कामे आपमं १, ११, २; काग ३०, ३; माग १, १४, १६; वाग १६, १; -मेण हिश्रौ १०, ७, ५.

पुत्रकामा ( मा-अ ) वतिका- -कयोः कौसू ३२, २८.

पुत्रकामे ( म-इ ) षि- -ष्याम् आश्रौ २, १०, ८.

पुत्रकामिन्- -मी आमिष्ट २, ४, ११: २५.

पुत्रकाम्य > पुत्रकाम्या- -स्यया वृदे ४, २४.

पुत्र-कृत- -न्तम् विव ६, ३३.

पुत्र- ( हृन् > ) श्रौ- -श्री क आमिष्ट १, ५, ५: ४; ८; वैग ५, ९: ३.

पुत्रज्य ( श्रौ-अ ) न्त<sup>b</sup>- -न्तम् वैग ३, ४: ४.

पुत्र-ज ( ग्व > ) ग्वी- -पावा ८, ४, ४८.

पुत्र-जन्मन्- -न्मना वाघ १५, २१.

पुत्र-जात<sup>c</sup>- -पाग २, २, ३७.

पुत्र-ज्यानि- -निम् वैश्रौ १, १९: २.

पुत्र-ता- -ताम् शंश्रौ १५, २५, ११; कप्र २, ८, १; वृदे ३, ११५.

पुत्र-त्रय- -यम् विव १८, ६.

पुत्र-त्व- -त्वम् वाघ १७, १६; ३५१; आश्रौ १४, ३; -त्वस्य आपव १, २८, ९<sup>d</sup>.

पुत्र-दर्शन- -न्तम् मीसू १, २, १३.

पुत्र-दायाद- -द्ये या ३, ३.

पुत्र-दार<sup>e</sup>- -रम् अप ६७, १, १.

पुत्र-द्वैहित्र- -त्रयोः शंघ २९०.

पुत्र-नामन्- -मानि शंश्रौ ४, १२, १०.

पुत्रनाम-ग्रहण- -णम् काश्रौ ४, १२, ११.

पुत्रनामन्<sup>c</sup>- -मा आपमं २, ११, ३३; १४, ३; आग; या ३, ४.

पुत्र-पति- -पाग २, २, ३१; -त्योः पा, पावा ६, १, १३.

पुत्र-प ( ति > ) षी<sup>c</sup>- -पा ४, १, ३५.

पुत्र-पशु- -पाग २, २, ३१; -शवः वाग १०, १५.

पुत्रपशु-काम- -मः गोश्र ४, ५, १५; ७, १५.

पुत्र-पुत्रा ( त्र-आ ) दि ( न > ) नी- -पावा ८, ४, ४८.

पुत्र-पौत्र- -पाग २, ४, ११; -त्रम् वौघ १, ५, ९५<sup>e</sup>; -त्राः काश्रौ २५; ४३; माश्रौ ८, ६, १; चाश्र ३९: १९; -त्रेभ्यः हिग १, २२, १४; -त्रैः आमिष्ट २, ४, ६: ४३.

पुत्रपौत्र-न्- -न्नस्य वौघ १, ५, १०२.

पुत्रपौत्र-प्रति ( छा > ) ष्ट<sup>c</sup>- -ष्टस्य शंघ ७४; २८४.

पुत्रपौत्र-व ( त् > ) ती- -ती आमिष्ट २, ७, ६: ५.

पुत्रपौत्रा ( त्र-आ ) दि- -द्वीन् वैश्रौका ८७.

पुत्र-पौत्रक- -कम् वाघ १७, ८६.

पुत्र-भागा ( ग-अ ) नुसार- -रेण विव १८, ३४.

पुत्र-भार्या- -र्यायै हिपि १८: २३.

पुत्र-भाव- -वः या ३, ५; -वम् या ३, ४.

a) पामेः वै १, २०-२७ h द्र. । b) =मन्त्र-विशेष- । वस. । c) विव. । वस. । d) पामेः

पुत्र-भ्रातृ-न्तरः आपश्चौ ११, १६,  
१४.  
पुत्र-भ्रातृ-सपिण्ड- ण्डाः आग्रिगृ  
३, ४, ४ : १५.  
पुत्र-मर्त्या<sup>३</sup>- स्व्याम्<sup>४</sup> हिश्रौ ३, ६,  
२; स्व्यायाम्<sup>५</sup> आपश्चौ ५,  
२६, ३; भाश्रौ ५, १७, ५.  
पुत्र-मात्र-त्रः वैगृ १, १ : १२.  
पुत्र-मित्र-सखि-शब्द- च्छदाः  
नाशि २, ३, १०.  
पुत्र-मुख-न्त्वम् शंघ २८५.  
पुत्र-यजमान- न्तयोः काश्रौ १५,  
५, ११.  
पुत्र-लाम-भात् वाघ १७, ४१.  
पुत्रलामा(भ-आ)दि-काङ्क्षण-  
-गम् वैध १, ९, १००.  
पुत्र-वत् शंघ २९०.  
पुत्र-वत्-वते वौश्रौ १३, ७ : १;  
हिश्रौ २२, २, १७०; -वन्तः  
वाघ १७, १०; -वान् पागृ ३,  
१०, ५०; हिपि.  
पुत्रवती-न्ति मागृ २, १४,  
३०; -ती वौश्रौ ९, ७ : ६;  
मागृ १, १०, १७०; वैगृ.  
पुत्रवन्ती-न्त्यः वाघ १७,  
११.  
पुत्र-वल<sup>६</sup>- पावा ५, २, ११२.  
?पुत्र-वासस<sup>७</sup>-ससा गोगृ ४, १०,  
१०.  
पुत्र-व्रत- >तिन्-ती वागृ ३,  
१२.  
पुत्र-शत-ते वृदे ६, २८; ३४.  
पुत्र-शब्द-च्छः ऋप्रा ४, ५९०.  
पुत्र-शिष्य-हित-ताय अप २३,

१४, ३.  
पुत्रशिष्यहितै(त-ए)पिन्-  
-षिमिः नाशि १, ८, ५.  
पुत्र-शोक-परिप्लुत-न्तः वृदे ६,  
२८.  
पुत्र-समन्वि(त>)ता-न्ताः अप  
५७, ४, ४.  
पुत्र-स्थान->नीय-याः वाघ  
१७, ८१.  
पुत्र-ह(त>)ती-पावा ८, ४, ४८.  
पुत्र-ही(न>)ना-नायाम् वैगृ ६,  
२ : ७.  
पुत्रा(त्र-आ)गम-मम् अप ६८,  
२, ३०.  
पुत्रा(त्र-अ)द<sup>८</sup>->पौत्राद्य<sup>९</sup>-  
-द्यम् अप्रा ३, १, १७०.  
पुत्रा(त्र-आ)दि-दिः कप्र ३, २, ८;  
४, ४.  
पुत्रादि-मृत<sup>१०</sup>-न्तम् वैश्रौ २१,  
९ : १.  
पुत्रादि-हीन-न्त्यः वैश्रौ २१,  
९ : १.  
पुत्रा(त्र-अ)न्त<sup>११</sup>-न्तात् पा ४, १,  
१५९.  
पुत्रा(त्र-अ)भाव-वे शंघ १८८;  
आपघ २, १४, २; हिघ-२, ३,  
१३; गौघ १५, १३.  
पुत्रा(त्र-अ)मात्य-परिवृत-न्ताय  
आश्रौ ९, ३, ९; १०, ६, १०.  
?पुत्रा(त्र-अ)र्थ<sup>१२</sup>-र्थः मीत् ६, ८,  
१९?  
पुत्रार्थिन्-र्थी अप २२, ९, ३;  
१०, ३; आज्यो १३, ३.  
२पुत्रा(त्र-अ)र्थ-र्थम् वैगृ ६, २ :

८; १२ : ५.  
पुत्रा-वल-पुत्रवल-टि. द्र.  
पुत्रिन्-त्रिणः शाश्रौ १५, १७,  
१०; माश्रौ ६, १, ७, १७; वाघ;  
-त्रिणन् आपमं २, ११, ६;  
-त्रिणा आपमं १, ११, १०;  
-त्रिणाम् वाघ १७, २; -त्रिणे  
वौश्रौ १३, ७ : १; -त्री आश्रौ  
२, १०, ८; वाधूश्रौ २, ३ : २;  
वाघ ११, ४८०.  
पुत्रिणी-णी आज्यो १३, ६.  
√पुत्रिय, पुत्रियन्ति<sup>१३</sup> अप्रा ३, १,  
१४०.  
पुत्रिय, या<sup>१४</sup>-यम् वाधूश्रौ २, ३ :  
६; -याम् कागृ २५, २००.  
√पुत्रीय, पुत्रीयते अप ६९, ५, २.  
पुत्रीयत्-यन्तः<sup>१५</sup> ऋप्रा ९,  
१६०.  
पुत्रीय-पा ५, १, ४०.  
पुत्रे(त्र-इ)ष्टि-ष्टिः कागृ ४३:  
१५.  
पुत्रो(त्र-उ)क्त-क्तम् ऋष २, ७,  
३२; अष २, ७९.  
पुत्रो(त्र-उ)पचार-रेण शंघ २८६.  
पुत्र्य-पा ५, १, ४०; -त्र्यः आगृ ४,  
८, ३५; पागृ ३, ८, २; -त्र्यम्  
वागृ २, ६०; द्रागृ ४, २, १३;  
वौघ ३, ८, ३८.  
१पुत्र-क-पुत्र-द्र.  
२पुत्रक<sup>१६</sup>-(>पौत्रक्य-पा.) पाग  
५, १, १२८.  
पुत्र-काम-प्रमृ. पुत्र-द्र.  
पुत्रिक<sup>१७</sup>-(>पौत्रिक्य-)  
पुत्रिका-प्रमृ. पुत्र-द्र.

a) उप. = नृत्यु-। b) परस्परं पाभे.। c) भाष्यभिका<sup>०</sup> इति C.। d) तु. पाम.। पुत्रावल- इति पागम.। e) वैप २, ३४. द्र.। f) पाभे. वैप १, १४५१। d.। g) वैप १ द्र.। h) विप.। वस.।। z) कस.। j) अपुत्रा<sup>०</sup> इति पाठः? यनि. शोचः (तु. जीसं. प्रयासं. प्रमृ.)। k) पाभे. वैप १, २०२८। g. d.। l) तस्मैहितमित्यर्थे घ>ह्यः प्र. उसं. (पा ४, ४, ११७)। m) तु. पाका.। पुत्रिक- इति भाण्डा. प्रमृ.

√पुय् पावा. दिवा. पर. हिंसायाम्;  
चुरा. पर. भाषायाम्.

पुद्<sup>a</sup> - पुव या २, ११.

२पुन-नामन्<sup>b</sup> - न्नः शंघ २८६;  
विघ १५, ४४.

पुनत् - √पूद्र.

पुनर्(,;स्)<sup>c</sup> आश्रौ २, ३, ७, ५,  
२र्क्ख; शांश्रौ १, ६, २५; ८, १०, १३<sup>d</sup>; काश्रौ; माश्रौ  
१, ३, ४, २३<sup>e</sup>; आपमं १, ५,  
३र्क्; २, २२, ७र्क्; आश्र ३,  
६, ८<sup>f</sup>; पाश्र १, ७, ३र्क्; काश्र;  
भाश्र २, २७; ५<sup>g</sup>; माश्र २, १८,  
४<sup>h</sup>; कौसू ७२, १४<sup>i</sup>; या १,  
२०; २, ९; २४<sup>j</sup>; १०, १८<sup>k</sup>;  
१४, ३५<sup>l</sup>; पुनःऽपुनः आश्रौ २,  
२, ११; १६, ४<sup>m</sup>; शांश्रौ; माश्र  
१, २, १, ३<sup>n</sup>; या ६, २७; पाग  
५, १, १२४.

पौनःपुन्य - पा ५, १, १२४.

पुनःकरण - णे वैताश्रौ २८, १२.

पुनःकल्पना (न-आ)दि - दि  
आमिष्ट २, ३, २ : १४.

पुनःकाम - मस्य आपश्रौ ५, २९,  
३.

पुनःपचन - नम् शंघ १७६.

१पुनःपद् - दम्, दस्य शांश्रौ ७,  
२६, ६.

२पुनःप (द >) द्रा<sup>b</sup> - दानाम्  
शांश्रौ ७, २६, ८.

पुनःपरिधान - नम् काश्रौ १५,  
५, १६.

पुनःपाक - कः वाघ ११, १२;

-केन वाघ ३, ५८; ५९; विघ  
२३, ३३.

पुनःप्रमाद - दे आपव २, २८, ८;  
हिघ २, ६, ८.

पुनःप्रयोग - नाः आपश्रौ ९, १, ७;  
हिश्रौ ५, ६, ८; मीसू ११, ४,  
४४; -गात् मीसू १०, ६, २९;  
११, ३, ३१<sup>m</sup>; -ने वैताश्रौ  
९, २५.

पुनःप्रवृत्ति - त्तिः मीसू ८, ४, १४.

पुनःप्रसङ्ग - ङः पावा ६, १, १३२;  
७, १, ७२.

पुनःप्रसङ्ग-विज्ञान - नात् पावा  
७, १, ८२; २, १, ४, १०.

पुनःप्राख्येपण - णम् शांश्र ६, २, ८.

पुनर्-अग्न्याधान - नम् वैश्रौ १,  
२० : १२.

पुनर्-अग्न्याधेय - यस्य वैश्रौ १,  
१९ : १.

पुनर्-अन्वाधाय वैश्रौ २४, २२ :  
३; ५.

पुनर्-अभिद्योत्य वैश्र १, ३, ११<sup>n</sup>;  
वैशि २, ९, ४<sup>o</sup>.

पुनर्-अभिहित - तः आपश्रौ ५,  
२९, ३.

पुनर्-अभ्यास - सेन वैश्रौ २६,  
१२ : २०.

पुनर्-अभ्युद्धृत - तेषु निस् ९, ८ :  
३१.

पुनर्-अभ्युक्तीय वैश्रौ १४, २३ :  
२४.

पुनर्-अवज्योत्य काश्रौ ४, १४, ५.

पुनर्-आगत - ते वैश्र ६, १४ : २.

पुनर्-आदान - नस्य वैश्रौ २४,  
१९, ३.

पुनर्-आदाय आश्रौ ३, १, १४<sup>p</sup>;  
काश्रौ २, २, १६; ६, ५, ५.

पुनर्-आदायम् शांश्रौ ९, २०, ६;  
१८, ४-५, ३; वैताश्रौ २२, ८;  
२६, ३; कौश्र ३, ३, १<sup>q</sup>; शांश्र  
३, ४, ५; ६, ३, १२.

पुनर्-आधान - नम् वैश्रौ २९, १२ :  
१५; हिश्रौ १५, ३, ५; आमिष्ट.

पुनराधान-कर्मन् - र्मणि कप्र  
३, १, १४.

पुनराधान-नक्षत्र - त्राणि वैश्रौ  
१, १९ : १२.

पुनर्-आधास्यमान - नः वैश्रौ ३,  
१ : १.

पुनर्-आधेय<sup>p</sup> - यः वैश्रौ १४,  
१९ : ३४; वैश्रौ २०, ९ :  
४; १४ : २; हिश्रौ; -यम्  
आश्रौ ३, १२, २९; शांश्रौ  
२, ५, १; काश्रौ; -यस्य वैश्रौ  
३, १ : ३; हिश्रौ ६, ५, ३९;

-यात् वैश्रौ ३, ३ : १४; माश्रौ  
५, २१, ११; हिश्रौ ३, ६, २७;  
-ये आश्रौ २, ८, ४; शांश्रौ ८,  
१३, ४; वाश्रौ १, ५, १, ६; हिश्रौ  
६, ५, ३९; -येन शांश्रौ १४, ४, १.

पौनराधेयिक - कात् वैश्रौ  
२४, १० : २; -कानि वैश्रौ  
२०, १९ : ८; -केन वैश्रौ २४,  
१९ : २.

पौनराधेयिकी - की  
आश्रौ २, १५, १०; ६, १४, २४;

- a) वैप १, २०२४ n द्र. । b) विप. । वस. । c) वैप १ द्र. । d) पासे. वैप १, २०२९ o द्र. ।  
e) पासे. वैप १, २०२९ h द्र. । f) पासे. वैप १, १४४९ e द्र. । g) पासे. वैप १, १०५९ d द्र. । h) सपा.  
आपमं २, २२, १० पाश्र ३, ७, ३ विशिष्टः पासे. । i) पासे. वैप १, १२१८ d द्र. । j) पासे. वैप १, २०२८ q द्र. ।  
k) पासे. वैप १, ९३३ i द्र. । l) पासे. वैप १, ७४४ l द्र. । m) पासे. वैप १, १६३९ l द्र. । n) पृ २९४ सङ्घत्  
सस्य. अभिद्योत्य इति नेष्टम् । o) थ्य इति पाठः ? यन्नि. शोधः । (तु. शांश्र.) । p) विप., नाप. (अभि-विशेष-) । गस. ।

शाश्रौ ८, १३, ५; -कीः आपश्रौ  
५, २९, १; भाश्रौ ५, २०, १३;  
हिश्रौ ६, ५, ३९.<sup>२</sup>  
पुनराधेय-काल- -लः शाश्रौ २,  
५, ४; भाश्रौ ५, १७, ७.  
पुनराधेय-दक्षिणा<sup>३</sup>- -गाः वौश्रौ  
३, ३ : १; २०, १९ : ११;  
भाश्रौ ५, २०, १४.  
पुनराधेय-धर्मम्<sup>४</sup>- -र्म वौश्रौ  
२५, २६ : १५.  
पुनराधेय-नक्षत्र- -त्राणि भाश्रौ  
५, १९, १; हिश्रौ ३, ६, ६.  
पुनराधेय-वत् मीसू १०, ५, ४७.  
पुनर-आम्नान- -नम् लाश्रौ ९, ६,  
२३; -नात् लाश्रौ ९, ६, २०.  
पुनर-आयण- -णः अप्राय १, ४<sup>५</sup>.  
पुनर-आरम्भ- -म्भः मीसू ९, १,  
३५.  
पुनर-आलम्भ<sup>६</sup>- -म्भः वौश्रौ २४,  
३६ : २; -म्भम् आपश्रौ ४,  
१६, १२; वौश्रौ; -म्भात् वौश्रौ  
२१, ८ : ३६; -म्भेन वौश्रौ २६,  
१२ : २०.  
पुनर-आवृत्त- -त्तम् वौश्रौ २६,  
२६ : १.  
पुनर-आवृत्ति- -त्तिः आश्रौ ३,  
१४, ३; कौश्रु ३, १२, २२; काश्रुड  
४१ : २३.  
पुनरावृत्ति-दुर्लभ- -भम् अप  
४०, ५, ३.  
पुनर-आस्तरण- -णे वौश्रौ २०, ७ :  
१३.  
पुनर-आहार- -रः काश्रौ २५, ११,  
८; १४, ३४.  
पुनर-आहारम्<sup>७</sup> आपश्रौ २, ६, ७;

वौश्रौ १, १२ : ४६; भाश्रौ.  
पुनर-इज्या- -ज्या आश्रौ ३, १०,  
१९; वैश्रौ २०, ५ : ६.  
पुनर-इष्टि- -ष्टिः अप्राय ४, २.  
पुनर-उक्त-पाग ४, २, ६०<sup>८</sup>;  
३, ७३<sup>९</sup>; -क्तम् तैप्रा १, ६१;  
-क्तस्य लाश्रौ ६, १२, ८; -क्ते  
माश्रौ २, ५, २, २६.  
पौनरुक्त- पा ४, ३, ७३.  
पौनरुक्तिक- पा ४, २, ६०.  
पुनर-उत्सृष्ट- -ष्टः काश्रौ १५, १,  
१२; आपश्रौ १९, १६, १६;  
वौश्रौ; -ष्टम् काश्रौ ७, १, ६;  
वौश्रौ ३, १ : ५; ३ : २; माश्रौ  
५, २, १०, १६.  
पुनर-उत्स्यूत- -तः शाश्रौ २, ५,  
२७; -तम् आपश्रौ ५, २९, ३;  
वौश्रौ.  
पुनर-उपक्रम- -मे निसू ३, ५ : ११.  
पुनर-उपनयन<sup>१०</sup>- -नम् आमिश्र २,  
७, १ : १; वैश्रु ६, ९ : ९; १० :  
१; वाघ २०, १७.  
पुनर-उपाकरण- -णात् गोश्रु ३,  
३, १६.  
पुनर-उपादान- -नम् वैश्रौ २१,  
११ : १.  
पुनर-ऊह- -हः निसू २, १ : ८.  
पुनर-नामन- -नम् अप ४०, ६, १४.  
पुनर-ग्रह- -हः वृदे २, ९७.  
पुनर-ग्रहण- -णम् काश्रौ १, ४, ७;  
२५, ५, २०; वौश्रौ १४, २६ :  
१०; -णात् काश्रौ १, ४, ६;  
१०, ६, १२.  
पुनर-ण<sup>११</sup>, नव, वा<sup>१२</sup>- -व क्रप्रा १,  
१०३; ५, ५३; -वः शाश्रौ १५,

१७, १<sup>१</sup>; माश्रौ १, ६, ५,  
११; वाश्रौ १, ५, १, १७; -वम्  
वौश्रौ ३, ८ : १७; -वाः वौश्रौ  
१८, १२ : १३.  
पुनर-दर्शन- -नात् अप ५३, ६, ४.  
पुनर-दहन-प्रभृति- -ति वैश्रु ७, ६ :  
३.  
पुनर-दहन-मन्त्र- -न्त्रेण वौषि २,  
३, १२; हिपि १२ : ११.  
पुनर-दहना(न-अ)न्त<sup>१३</sup>- -न्तम्  
आमिश्र ३, ७, ३ : २९; वौषि २,  
३, २; हिपि १२ : ९.  
पुनर-दातृ- -त्रे आश्रौ २, १०, १५.  
पुनर-दाय<sup>१४</sup>- -पाग २, १, ७२.  
पुनर-दाह- -हः काश्रौ २५, १३,  
४४; आमिश्र ३, ७, ४ : ७; वौषि  
२, ३, १.  
पुनर-दीक्षा- -क्षायै हिश्रौ १०, ५,  
४१.  
पुनर-दोह- -हाय आपश्रौ १, १३,  
१०; वौश्रौ १, ३ : २७; भाश्रौ  
१, १३, १४; हिश्रौ १, ३, ४४.  
पुनर-धेनु- -नुः लाश्रौ ९, ४, ७.  
पुनर-निष्कृत<sup>१५</sup>- -तः आपश्रौ ५,  
२९, १; वौश्रौ २४, १८ : ९;  
माश्रौ ५, २१, १; वैश्रौ १, २० :  
८; हिश्रौ ६, ५, ३९; -तम् वौश्रौ  
३, १ : ४; ३ : १.  
पुनर-भक्ष- -क्षः आश्रौ ५, ६, ५.  
पुनर-भू<sup>१६</sup>- -पाग ४, १, १००; १०४;  
पावा ६, ४, ८४; -भुवम् सुघप  
८६ : ४; -भूः कृवाघ १७, १९;  
२०; विध १५, ८४; -भ्वः शंघ  
८४; -भ्वाम् वौषि २, २, २७.  
पौनर्मव, वा<sup>१७</sup>- पा ४, १,

a) उप. = २दक्षिणा-। b) पाठः? तु. संस्कृतुः टि.। c) वैप १ द्र.। d) वैप २, ३खं द्र.।  
e) = प्रन्थ-विशेष-। f) विप.। वस.। g) वौश्रौ (१८, १२ : १३), माश्रौ. पाठः। h) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः  
द्र.। i) नाप., व्यप.। वैप १ द्र.। j) नाप.। अपत्ये लम् प्र.।



१०४; -वः वाध १७, १८; शंघ  
२९१; वौध २, २, २७६; विघ  
१५, ७६; -वम् वौध २, २, ३२;  
-वाः काध २८०:१; -वेन  
वौध ४, १, १८.

पौनर्भवा-दग्ध- ग्धम्  
काध २८०:७.

पौनर्भवायण- पा ४, १,  
१००.

पुनर्भू-प्रस(व>)वा<sup>१</sup>- वा काध  
२८१:४.

पुनर्-मघ<sup>१</sup>- -वः भाशि ३९६.

पुनर्-मृत्<sup>१</sup>- -मृत् वौध २, ११:  
२२६; २८, ४: ३२; वाधूधौ ३,  
९: २२; हिश्रौ १८, ४, ६१; वौघ  
३, ८, ६; वौध २, ६, ८.

पुनर्-यज्ञ<sup>१</sup>- -ज्ञः काश्रौ २५, १२,  
२१; १४, २९; -ज्ञे काश्रौसं  
३४: २; वौधौ १८, २२: ९;  
वैश्रौ २१, १३: ४, ६; हिश्रौ  
१५, ६, ४०; ४३.

पुनर्यज्ञ-पय- -यम् काश्रौ १६,  
१०, ८.

पुनर्-युवन्<sup>१</sup>- -वानम् माश्रौ ६,  
१, ८, १०; वाश्रौ २, १, ८, ७.

पुनर्-वचन- -नम् पावा १, १, ३<sup>२</sup>;  
३, ३, १२××; मीसू; -ने ऋप्रा  
१०, १६.

पुनर्-वत्<sup>१</sup>- -वताम् काश्रौ २२,  
१०, १७.

पुनर्वती- -तीभिः माश्रौ ६, १,  
४, १२; ३८; -तीभ्याम् माश्रौ  
६, १, ४, ३५.

पुनर्-वत्स<sup>१</sup>- -त्सः लाश्रौ ९, ४, ७;  
ऋश्र २, ८, ७<sup>१</sup>.

पुनर्-वरण- -णम् काश्रौ २५, ११,  
९.

पुनर्-वसु<sup>१</sup>- -सवे गौध २६,  
१२६<sup>१</sup>; -सुः वाश्रौ १, ५, १, ५;  
अप १, ३७, ५६; अशां ७, ५६;  
-सुभ्याम् वौश्रौ ३, १: ७; २४,  
१८: ५; शांश्र १, २६, ५६<sup>१</sup>;  
अप १, ४३, ५; ४८, ३; अशां  
१२, १; -सुम् अशां १, ६; -सू  
शाश्रौ २, ५, ५; आपश्रौ; -सू-  
भ्याम् वैश्र ३, २०: ४६<sup>१</sup>; -०सो  
अशां १, ६; -सोः अश्र १, २७, २;  
-सौ विघ ७८, १२; -स्वा अप  
१, ९, ८; -स्वोः काश्रौ ४, ११,  
५; आपश्रौ ५, ३, ७; वौश्रौ;  
पा. १, २, ६१.

२पुनर्वसु- पा ४, ३, ३४.

पुनर्वसु-विशाखा- -खयोः पावा  
१, २, ६२.

पुनर्-विधान- -नम् पावा ३, ३,  
१०; -नात् पावा ७, २, ४४; -ने  
पावा ७, २, ३७.

पुनर्-विवाह- -हम् वैश्र ६, ११:  
१२; १२: ९; १३: २; ८; -हे  
वैश्र ६, ११: १२.

पुनर्-हविस<sup>१</sup>- -विः वौश्रौ ७,  
१८: ६; १९: ७××; माश्रौ;  
-विषम् माश्रौ २, ४, ३, १४; २४.

पुनर्-हुति- -तिम् काश्रौ ४१: १६.

पुनर्-होम<sup>१</sup>- -मम् आश्रौ ३, ११;  
१८; वैश्रौ २०, ५: ६; ११: ७;

वैश्र ६, १८: १०; -मात् काश्रौ  
४१: १५.

पुनश्-चिति<sup>१</sup>- -तिः आपश्रौ १७,  
२४, ११; वौश्रौ २५, ३०: १०;  
माश्रौ ६, २, ६, २८; हिश्रौ ११,  
१, २; -तिम् काश्रौ १७, १२, १८;  
१८, ६, ३३; वौश्रौ; -तौ वौश्रौ  
२३, १४: १९; वैताश्रौ २९, ९.

पुनः-शिला<sup>१</sup>->पौनःशिला<sup>१</sup>- -लम्  
कौसू ६६, १५.

पुनः-श्रुति- -तिः मीसू २, ४, २९;  
४, २, २४××; -तौ मीसू १०,  
८, ४२.

पुनस्, <sup>१</sup>-संभव- -वे आपध १, ५,  
५; हिघ १, २, ५.

पुनस्, <sup>१</sup>-सर्ग- -र्गे आपध २, २४,  
६; हिघ २, ५, १७१.

पुनस्, <sup>१</sup>-सिद्ध- -द्धम् वाध १४, २८;  
गौध १७, १३; सुधप ८८: ३.

पुनस्<sup>१</sup>, <sup>१</sup>-स्तोम<sup>१</sup>- -मः काश्रौ २२,  
१०, १६<sup>१</sup>; -मे वैताश्रौ ३९, १७;  
-मेन आपश्रौ २२, ११, ११<sup>१</sup>;  
काश्रौसं; हिश्रौ १७, ५, ११<sup>१</sup>; वौध  
१, १, ३०; ३, १०, ७; -मौ वौश्रौ  
१८, ४७: २३.

पुनः-संस्करण- -णम् काश्रौसं ३३:  
१०; ११; १५; माश्रौ ३, १, १९.

पुनः-संस्कार- -रः वाध २०, १९;  
२३, ३०; -रम् आमिश्र २, ७, १:  
१६; ३, १०, ५: १; ३; वाध;  
-रे वैश्र ६, १०: ५.

पुनः-संस्कार-कर्मन्- -र्मणि वाध  
२०, १८.

a) विप. । वस. । भूः प्र० इतिः पाठः ? यनि. शोघः (तु. पमा १, २, ५७) । b) वैप १ द्र. । c) वैप  
२, ३खं. द्र. । d) = पुनःशब्दवत्- । e) नाप. । तस. । f) = ऋषि-विशेष- । g) = देवता-विशेष- ।  
h) सप्र. सुभ्याम् <> सुभ्याम् इति पाठे. । i) = ओपधि-विशेष- (तु. पुनःसर्ग- [शौ ४, १७, २] इति Pw.) ।  
j) विप. (मधुमन्थ-) । तस्येदमीयः अण् प्र. । k) हिघ. पाठः । l) वाध. पाठः । m) काश्रौ. आपश्रौ.  
काश्रौसं. वौश्रौ. पाठः; वौध. सं-लोपः । n) सप्र. भः <> भेन इति पाठे. ।

पुनःसंस्कार-विधि- -धिम् वौषि  
३,८,१.  
पुनःसंस्कृत- -तः शांश्रौ २,५,२७;  
काश्रौ ४, ६, १९; वौश्रौ २४,  
१८ : १०; लाश्रौ ९, ४, ७;  
-तम् वौश्रौ २४, १८ : १७.  
पुनःसंनहन- -ने वैश्रौ ८, ३ : १४;  
हिश्रौ ५, १, ११.  
पुनःसवन- -नम् वौध ३, १०, ७;  
गौध १९, ८१.  
पुनान- ✓पुद्द्र.  
✓पुन्थ पाधा. भ्वा. पर. हिसासंक्ले-  
शनयोः.  
पुंनक्षत्र-प्रसृ. पुंस्-द्र.  
पुन्नाग<sup>३</sup> > ण-चम्पक- कौ अप  
२६, ५, ५.  
शुं-नामन्- पुंस्-द्र.  
२पुन्-नामन्- पुद्-द्र.  
पुपुञ्जस्- ✓पुप्द्र.  
पुम्<sup>३</sup>- ऋत ४, २, २; पुमः शौच २,  
२५; पा ८, ३, ६.  
पुमं, मांस्<sup>८</sup>- पाठ ४, १७८; पा ७,  
१, ८९; -मांसः माश्रौ २, २, ४,  
२३; आश्र १, ७, ३१; वाध;  
-मांसम् आपश्रौ १, १०, १११;  
५, ११, ६१; १९, १६, १३; वौश्रौ;  
कौश्र १, १२, ६१<sup>०</sup>; शांश्र १,  
१९, ७१<sup>०</sup>; या ३, ४, ९, १५१;  
-तंमांसौ कौश्र १, १०, २४<sup>२</sup>;  
शांश्र १, १७, ९<sup>३</sup>; पाश्र; -मात्  
शांश्रौ १६, ११, १७; आपश्रौ  
७, ११, ९; वौश्रौ; आपमं  
१, १३, २<sup>३</sup><sup>०</sup>; कौश्र १, १०,

२४<sup>२</sup><sup>१</sup>; शांश्र १, १७, ९<sup>३</sup><sup>१</sup>;  
आमिश्र १, ५, ५ : १६<sup>१</sup><sup>०</sup>; वौश्र  
४, १, १०<sup>३</sup><sup>१</sup>; या ३, ४; ६; २,  
१५<sup>१</sup><sup>०</sup>; १४, ६; पा १, २, ६७.  
पुं-मुहुस्- पुंस्-द्र.  
✓पुर् पाधा. तुदा. पर. अग्रगमने.  
पुर्<sup>३</sup>- पा ३, २, १७७; ५, ४, ७४;  
पुरः आपश्रौ ११, ४, ८; १६,  
१४, ५१; २१, १२, ३; वौश्रौ;  
पुरम् तंआश्रौ ५, १३, ६; ८, १२,  
७; आपश्रौ; पुरा आश्रौ १०,  
३, २५<sup>३</sup>; तंपुराम् आश्रौ ७, ८,  
३; शांश्रौ ८, १७, १<sup>३</sup>; १२,  
२६, २१; वौश्र; या ६, १३६;  
पुरि आपघ २, २५, ३; हिघ २,  
५, १८१; पृः काश्रौ २३, ५,  
२७<sup>३</sup>; आपश्रौ १४, २६, ११;  
वाधूश्रौ ४, १९<sup>२</sup> : १५<sup>०</sup>; हिश्रौ;  
पृभिः वौश्रौ ९, ८ : १९<sup>१</sup>.  
पुरं-दर<sup>८</sup>- पा ३, २, ४१; ६, ३, ६९;  
-रः अप १, ४०, ११; ७, १,  
२; अवां; या ७, १३; -रम्  
वैताश्रौ ५, १४; अप ७, १, ७;  
वौध २, ९, ५.  
पुरि-शय- -यः या १, १३; २, ३.  
पुरि-पाद<sup>१</sup>- -द्रः या २, ३.  
पृ-पति- -तिम् उच् ६, १<sup>१</sup>.  
तंपुर-भिद्<sup>८</sup>- -मित् आश्रौ ५, १६,  
२; ७, ५, २०; ९, ८, १८; शांश्रौ  
७, २३, ६; वैताश्रौ.  
पूर-याण<sup>८</sup>- -णः शौच ३, ८३.  
३पुर<sup>३</sup> > पुर-तस्<sup>१</sup>(ः) वैश्र ५, ५ : २;  
कप्र २, ८, १; पि ३, ४१.

२पुर<sup>३</sup>- पाग २, ४, ३१; ६, २, १९३;  
-रम् आपघ १, २२, ७; २, २५,  
३; ५; विध; -रत्स्य अप ६९,  
३, ५; -राणाम् अप ७०<sup>३</sup>, २०,  
५; -राणि अप ५७, १, ४; -रे  
अप ५७, २, ७; ६४, ८, २<sup>३</sup>xx;  
पा ६, २, ९९; -रेषु अप ३, ३,  
७; ७०<sup>३</sup>, ७, २.  
पुरी- -रीः वृदे ७, ५२.  
१पौर<sup>३</sup>- -रः गौध ६, १०; १५;  
-राः अप ५१, ४, २; -रेषु अप  
७२, ३, १२.  
पौर-सख्य- -ख्यम् आपघ  
१, १४, १३; हिघ १, ४, ४५.  
पुर-शोभ- -भः अप ५८<sup>३</sup>, ४, २.  
पुर-नोपुर- -रेषु अप ७०<sup>३</sup>, ११, २०  
पुर-ग्राम-निवेशन- -नम् अप ६४,  
४, ७.  
पुर-दुम- -माणाम् अप ७०<sup>३</sup>, ११, १९.  
पुर-द्वार- -द्वारि वौध २, ३, ३४.  
पुर-द्वार- -ने अप ५८<sup>३</sup>, ४, २; ६४,  
५, ३; ७०<sup>३</sup>, ६, १.  
पुर-मध्य- तस्<sup>(ः)</sup>अप ७०<sup>३</sup>, ७, ४.  
पुर-मध्य-त्य- -त्याः अप ७०<sup>३</sup>,  
५, ५.  
पुर-मुख्य- -ख्ये अप ७०<sup>३</sup>, १०, २.  
पुर-राष्ट्र-हानि- -निः अप ३, २, ५.  
पुर-रेणु-कुण्ठित- -शरीर- -रः वौध  
२, ३, ५३.  
पुर-रोध- -धः अप ६३, ३, १;  
-धम् अप ६३, ४, २.  
३पुर<sup>३</sup>- पाग ४, १, १२३; १५१.  
२पौर- -रः ऋअ २, ५, ७३.

a) =पुष्प-भेद-। व्यु. ?। b) =पुंस्-। c) वैप १ द्र.। d) पुमांस्त्वम् इति पाठः? यनिः शोधः (तु. सप्र. शौ ३, २३, ३ शांश्र १, १९, ७)। e) पाभे. वैप १, २०३२ g द्र.। f) एकतरत्र पुमांसं व° इति पाठः? यनि. च संव° इति च शोधः (तु. BC.)। g) वैप १, २०३२ k द्र.। h) =दशरात्र-याग-। i) उत्त-उप. < ✓प (<स)द्। श्ण° इति स्त.। j) वैप १, २०३३ h द्र.। k) =पुरस्। l) वैप ३, ५२५ t द्र.। m) पुर- इत्यनेन सन्यायता द्र.। n) विव., त्राप.। तात्रभक्तिः अण् प्र.। o) व्यप.। व्यु. ?।

१वैरिय- पा ४,१,१२३.  
 पौर्य- पा ४,१,१५१.  
 पुरक<sup>३</sup>-(>पुरका-त्र[न>]ण- पा.)  
 पाग ६,३,११६.  
 पुरग- पाग ४,२,८०; ६,३,११६.  
 पौरगीय- पा ४,२,८०.  
 पुरगा-त्र[न>]ण- पा ६, ३,११६;  
 ८,४,४.  
 १पुरण- पा २,८१.  
 २पुरण- (>√पुरण्य पा.) पाग ३,  
 १,२७.  
 पुरंदर- पुर- द्र.  
 †?पुर(म्>)न्-धि<sup>b</sup>- -धिः आपमं  
 १,३,३, पाग १,६, ३; आमिष्ट;  
 या ६,१३६; १२,२; -धिम आश्रौ  
 ३, ७, १४; शाश्रौ ८, १८, १०;  
 १४, ७१, ४; आपश्रौ; या ६, १३;  
 १७; -धी<sup>d</sup> अप ४८, ६०; निघ  
 ३, ३०; -ध्या या १२, ३०;  
 ऋप्रा ८, २८.  
 पुरन्धिया<sup>e</sup> वृदे ३, ७९.  
 पुरन्धि<sup>f</sup>->°न्धि-नात्र- त्रे विघ  
 १९, १४.  
 पुरस्<sup>g</sup>(; ; श्) पा १, ४, ६७; ५, ३,  
 ३९; पाग १, ४, ५७; ५, १, १२४;  
 †आश्रौ ४, १३, ७; ८, १४, ४;  
 शाश्रौ; आपश्रौ १३, २४, १९†<sup>h</sup>;  
 वौश्रौ ४, ११ : २२†<sup>h</sup>; वैश्रौ १६,  
 २८ : ७†<sup>h</sup>; हिश्रौ १०, ५, ४८†<sup>h</sup>;  
 वाघ १, १५†<sup>h</sup>; वौघ १, १,  
 २८†<sup>h</sup>; या २, १२; ९, १६†<sup>h</sup>;  
 पुरःऽपुरः हिश्रौ ४, १, ३१.

पौरस्त्य- पा ४, २, ९८; -स्त्यः  
 वैश्रौ १४, ४ : २; -स्त्यात् वैश्रौ  
 १४, ४; ३; ७<sup>३</sup>; -स्त्ये वेज्यो १६.  
 पौरस्त्य- पा ५, १, १२४.  
 पुर-उपरिष्टाजू-ज्योतिष्मती<sup>१</sup>- ती  
 अत्र ४, ३८.  
 पुर-उष्णिह<sup>१</sup>- -ष्णिक् शाश्रौ ७, २७,  
 ३; निस् १, २ : ८; २, ११ : २७;  
 २८; ऋअ; -ष्णिहः शाश्रौ ७,  
 २७, २१; अत्र ५, २७; -ष्णिहौ  
 ऋअ २, ८, ९८; अत्र २, २४†<sup>k</sup>;  
 ६, २; १५, १४.  
 पुरउष्णिक्-वृहत्य(ती-अ)  
 जुष्टुव्-अन्त<sup>१</sup>- -न्तम् ऋअ  
 २, ८, ३०.  
 पुरउष्णिग्-अन्त<sup>m</sup>- -न्तः ऋ २,  
 ८, ४.  
 †पुर-एवृ<sup>n</sup>- -ता आश्रौ ४, ४, २;  
 १२, २; शाश्रौ ५, ६, २; काश्रौ;  
 -तारः शुप्रा २, ६१; -त्रा शाश्रौ  
 १५, २७, १.  
 पुरः-ऋकुम्मीती<sup>m</sup>- -ती अत्र ७, ७०;  
 १९, ४०.  
 पुरः-पर-शाकर (र>)रा<sup>१</sup>- -राः  
 अत्र १३, १.  
 पुरः-परोष्णिह<sup>m</sup>- -ष्णिक् अत्र  
 ७, ६७.  
 पुरः-प्रस्रवण<sup>b</sup>- -णाः ऋप्रा ४, ५०†<sup>१</sup>.  
 पुरः-शक्ती<sup>१</sup>- -री अत्र ४, २९.  
 पुरः-शाक्व(र>)रा<sup>m</sup>- -रा अत्र  
 १३, २.  
 पुर(स्>)श-चक<sup>o</sup>- -ऋम् आपश्रौ

१२, ७, २; वैश्रौ १५, ८, ८.  
 †?पुरश्चर<sup>p</sup> आपश्रौ १, ६, २; १५,  
 ४, १२; ५, ४××; वैश्रौ.  
 पुरश्-चरण<sup>p</sup>- -णः कृअप ७०, २, १;  
 ९, २; -णम् वौश्रौ २, ६ : २;  
 अत्र २२, १०, ४; ४१, ३, ९; -णे  
 निस् १०, ११ : २.  
 पौरश्चरणिक्- पा ४, ३, ७२.  
 पुरश्चरण-शोधित- -ताः अत्र  
 ६८, ५, २४.  
 पुरस् √कृ, पुरोऽकृत वाधूश्रौ ४,  
 ३० : १३; पुरस्कुर्वीरन् काश्रौ  
 २२, ५, २९; ११, ८; लाश्रौ ८, ७,  
 ४××.  
 पुरः...षकृत वाधूश्रौ ४,  
 ३० : १५.  
 पुरस्-कृत- -तः वृदे ७, ७६.  
 पुरस्, -कृति<sup>१</sup>- -तिः अत्र ८,  
 ५; ९, १०; ११, २.  
 पुरस्कृति-त्रिष्टुव्-वृहती-  
 गर्भा<sup>१</sup>- -र्भा अत्र ५, १०.  
 पुरस्-कृत्य आपश्रौ १३, २२, ५;  
 वौश्रौ १८, १० : २२; १७ : २७;  
 माश्रौ.  
 पुरस्-तात्<sup>d</sup> आश्रौ १, ६, ४; ११,  
 ५××; शाश्रौ १, २, २××;  
 १५, २६, १†<sup>१</sup>; काश्रौ;  
 आपमं २, ५, १२†<sup>१</sup>; माग १,  
 २२, ११†<sup>१</sup>; हिग १, ७, १०†<sup>१</sup>;  
 गोय ३, ८, ५†<sup>१</sup>; या १, ४; ३,  
 १५; १६××.  
 पुरस्ताच्-चुवुक<sup>m</sup>- -ऋम् आपश्रौ

a) तु. पाका. । पुरग- इति भाण्डा. प्रभ. । b) वैप १ द्र. । c) पामे. वैप १, २०३४ g द्र. ।  
 d) = थावा-वृथिवी- । e) पुरन्धिर् योपा (मा २२, २२) > छन्दोदिशा यनि. । f) = स्त्री- । व्यु. ? < २पुर-  
 √ष्ट इति अभा. । g) पामे. वैप १, १८९१ k द्र. । h) पामे. वैप २, ३खं. अति तैत्रा १, ६, १ टि. द्र. ।  
 i) विप. । दस. > वस. । j) = छन्दो-विशेष- । वस. । k) 'हे इति पाठः ? यनि. शोधः । l) दस. > मलो.  
 कस. > वस. । m) विप. । वस. । n) विप. । वस. । o) अस. वा. क्वि. । p) वैप २, ३खं. द्र. ।  
 q) पामे. वैप २, ३खं. पुरः ऐवा ७, १८ टि. द्र. । r) = पूर्वा-दिश- ।

१६, २७, ७; वैश्रौः १८, १९ : १०.

पुरस्ताज्-जप- -पः शांश्रौ १,  
१, ३८<sup>२</sup>; ७, २, १५; द्राश्रौ ५,  
३, १४; लाश्रौ २, ७, १३; -पम्  
द्राश्रौ ५, ३, २३; लाश्रौ २, ७,  
२०; जैश्र १, १४ : २; -पात्  
द्राश्रौ ५, ४, १८; २३; लाश्रौ २,  
८, १८; २३; -पेषु निस् २, ९ :  
१४.

पुरस्ताजपो (प-उ) परिष्ठा-  
जप- -पौ द्राश्रौ ५, ४, १५;  
लाश्रौ २, ८, १५.

पुरस्ताज्-ज्योतिषमती<sup>b</sup> - ती  
अश्र ४, २९; ८, २; १९, ५५.

पुरस्ताज्-ज्योतिस्<sup>c</sup> - तिः  
क्षुस्<sup>d</sup> २, १२ : १५, १८; निस् १,  
२ : १६<sup>d</sup>; अश्र; -तिपम् शुश्र  
२, ३१०.

पुरस्ताव-ककुम्मती<sup>b</sup> - ती अश्र  
१२, २.

पुरस्ताव-तिर्यन्<sup>c</sup> - र्यन्वौ  
वौश्रौ १७, ३० : २<sup>e</sup>.

पुरस्ताव-पृच्छ<sup>b</sup> - पृच्छाः  
आपश्रौ २३, ९, १३; हिश्रौ १८,  
३, १६.

पुरस्ताव-प्रस्तारपङ्क्ति<sup>b</sup> -  
-ङ्क्तिः अश्र ८, ८.

पुरस्ताव-स्तोम<sup>b</sup> - मः लाश्रौ  
७, १, १०; २, १५; -भम् लाश्रौ  
७, ७, २७; निस् ५, १ : १९;  
-माः लाश्रौ ७, ३, १२; निस्  
६, ७ : ११; -भानि निस् २,  
३ : ३; ६; १०; -मेन लाश्रौ  
७, ६, २२.

पुरस्ताव-स्वाहाकृति<sup>b</sup> - तिम  
वौश्रौ ४, ७ : १३; ११, ५ : ७;  
१५, ३१ : ७.

पुरस्ताव-जमिद्योम<sup>b</sup> - मः  
वैताश्रौ ४२, १७; -माः शांश्रौ  
१६, ३०, १२.

पुरस्ताव-अलङ्कार<sup>b</sup> - राः  
आपश्रौ ६, ३, २; हिश्रौ ३,  
७, १२.

पुरस्ताव-आपन्न- -आनि निस्  
६, ९ : २३.

पुरस्ताव-उदक<sup>b</sup> - कम् वौश्रौ  
२५, ५ : २<sup>f</sup>.

पुरस्ताव-उपयाम<sup>b</sup> - माः  
आपश्रौ १२, १६, १३; हिश्रौ ८,  
४, १२; -मेन आपश्रौ १२, १५,  
३; वैश्रौ.

पुरस्ताव-ग्रन्थि<sup>b</sup> - ग्रन्थि काश्रौ  
२, ७, १६; माश्रौ १, २, ५, २५.

पुरस्ताव-धो (<हो)म<sup>b</sup> - मः  
कौस् ३, १९; -माः कौस् ४७,  
८; ६८, ३०; अत्राय १, २<sup>g</sup>; २,  
१<sup>h</sup>; २-४; ७<sup>i</sup>; ८; -मान् वैताश्रौ  
२, १०<sup>f</sup>; ९, ९×४; कौस्:

पुरस्ताव-धोम-न्त् - न्वस्  
कौस् ८, १.

पुरस्ताव-धोम-संस्थितहोम-  
-मान् कौस् ८०, २९; ४०;  
-मेपु वैताश्रौ १, ४; ८, ५.

पुरस्ताव-धोम-संह (त >) )  
ता- -ताम् कौस् ४, ९.

पुरस्ताव-वृहती<sup>b</sup> - ती निस्  
१, २ : २०; ऋश्र १, ७, २ शुश्र;  
अश्र ९, ६(२); -त्यौ अश्र ८,

२; १४, २.

पुरस्ताव-वार्हत<sup>b</sup> - तम् ऋश्र  
२, १०, २२.

पुरस्ताव-वृहत्य (ती-अ)न्त<sup>b</sup> -  
-न्तम् ऋश्र २, १०, ९३.

पुरस्ताव-भाग, गा<sup>b</sup> - नानि अश्र  
१, ५, १; ६; -गाभिः वौश्रौ ६,  
१४ : ४.

पुरस्ताव-वर्जम् काश्रौ ७, १, १२.

पुरस्ताव-विराज<sup>b</sup> - राद् अश्र  
१२, २.

पुरस्ताव-मास<sup>b</sup> - सस् वौश्रौ  
१७, २६ : १.

पुरस्ताव-लक्ष (ण >) णा<sup>b</sup> - णा  
आश्रौ २, १४, १९; शांश्रौ १,  
१७, १६.

पुरस्ताव-लक्ष्मन्<sup>b</sup> - क्ष्मा  
आपश्रौ १९, १८, ९; २४, १३, ८;  
वौश्रौ २६, ४ : १३; हिश्रौ २२,  
२, ५.

पुरः, स्<sup>b</sup>-सद्<sup>b</sup> - सद्ः आपश्रौ  
१८, ९, ११; वौश्रौ १२, ४ : ४;  
वाश्रौ; वौष ३, ६, १३; -सदे  
वाश्रौ ३, २, १, २३; चाश्र १५, ४.

पुरः-सर- पा ३, २, १८.

पुरो (रस्-अ)क्ष<sup>b</sup> - क्षम् आपश्रौ  
११, ११, १; १२, ७, २<sup>g</sup>; १८, २,  
९; वौश्रौ.

पुरो-ना<sup>b</sup> - नाणाम् आपश्रौ १२,  
२०, ८; वौश्रौ ७, १० : १२;  
वैश्रौ.

पुरो-नाम<sup>b</sup> - मान् वैताश्रौ ९, १२.

पुरो-नाव<sup>b</sup> - वः कौस् १०४, २.

पुरो-ना<sup>b</sup> - नाः वौश्रौ १४, १२:

a) विप. > नाप. । वस. । b) विप. । वस. । c) = छन्दो-भेद- । वस. । d) = पठह-विशेष- ।

e) तु. Thibaut JASB LXII, २६५। f) पाभे. पृ १५५६ b द्र. । g) वैप २, ३ सं. द्र. । h) विप.,  
नाप. (छन्दस्) । i) पृ ५७२ k द्र. । j) = कर्न-विशेष- । वस. । k) वौष. चाश्र. पाठः । l) वैप १ द्र. ।  
m) अश्र. वा. क्रिवि. । n) उस. उप. कर्तरि प्र. ।

१४; १५; १९, ७ : ५२; वैश्रौ  
 १५, १० : ८; हिश्रौ ८, २, ४२;  
 या ८; २१६; -गाम् आपश्रौ  
 ५, ८, ६; वौश्रौ २, १५ : ९;  
 वाश्रौ १, ४, १, २०; हिश्रौ ६, ५,  
 १०.  
 पुरो-गामिन्-मी या ८, २१.  
 पुरो-ग्रन्थि<sup>५</sup>-न्थि आपश्रौ २, ८, १;  
 वौश्रौ १, १३ : ८; भाश्रौ.  
 ऋपुरो-जिति<sup>६</sup>-ती<sup>७</sup> छसू १, ३ :  
 ५; १२×४; निस्; -त्याम्  
 लाश्रौ ८, ५, २१.  
 पुरो(रस्-अ)त्तिजगती<sup>८</sup>-ती अश्र  
 ५, २९; ११, १.  
 पुरो(रस्-अ)त्तिजाग(त>)ता<sup>९</sup>-ता  
 अश्र ११, ५.  
 पुरो(रस्-अ)त्ति-शक्ती<sup>१०</sup>-री अश्र  
 ४, ४०; ९, ५.  
 पुरो-देवता->त्व(त्य>)त्या-  
 न्वे अश्र २, २४.  
 पुरो-द्वयतिजाग(त>)ता<sup>११</sup>-ता  
 अश्र १३, २.  
 पुरो-धा>पुरो-धस्- पाठ ४,  
 २३१; -धसः शुअ २, २१;  
 -धसम् अप ५८<sup>३</sup>, ४, ७; -धसा  
 अप ७, १, १; ३१, २, २; -धसि  
 अप ६४, १०, ६; -धःसु अप ७०,  
 २, ४; -धाः अप २, ५, २; ३, १,  
 १०; वृदे ६, १४९.  
 पुरोधस्-न्व-न्वे अप ४, १,  
 २१.  
 पुरो-धा<sup>१२</sup>-धाम् शाश्रौ १६, २९,  
 ६; ११; छसू २, ४ : १; निस्  
 ७, १ : ६; -ऋधायाम् आपश्रौ

१६, १, ३; पाश्रु १, ५, १०;  
 आम्रिग १, ५, २ : ३५.  
 पुरोधकाम-मः आपश्रौ  
 २, १९, ५; २२, ७, ६; भाश्रौ;  
 -मस्य शाश्रौ १६, २९, १०;  
 काश्रौ २२, ११, १४; हिश्रौ २,  
 २, १८.  
 पुरोधकाम-यज्ञ-ज्ञः  
 निस् ७, १ : ३.  
 पुरो-धान्-तुः वृदे ५, ६.  
 पुरो-धास्यमान-न्तः शाश्रौ १४,  
 २९, २.  
 पुरो-हित<sup>१३</sup>-पाग ४, ४, ४८; ५,  
 १, १२४<sup>०</sup>; १२८; -तः आश्रौ  
 २, १, २११; शाश्रौ; या २,  
 १०; १२१<sup>१</sup>; २४; ७, १५;  
 -तम् ऋश्रौ १, ३, २७;  
 २, १, २६; शाश्रौ; या ७,  
 १५१; -तस्य आपश्रौ २, १६,  
 १०; १८, १२, ३; काश्रौ; -ता  
 आश्रौ ९, ११, १९१; -ताः अप  
 ५१, ४, ३; -तान् ऋश्र २, १०,  
 ५६; वृदे ७, ८५; -ताय आपश्रौ  
 १८, १८, १४; हिश्रौ; -ते वौश्रौ  
 १८, २ : १५; अप ५, ५, ५×५.  
 पौरुहित-पा ४, ४, ४८.  
 पौरुहित्य-पा ५, १,  
 १२४; १२८; -त्ये कौसू १७,  
 ३०; अप ३, ३, ३; ४.  
 रपौरुहित्य<sup>१४</sup>-त्यान्  
 आश्रौ १, ३, ३.  
 पुरोहित-कर्मन्-र्माणि अप  
 ४, १, १.  
 पुरोहित-कुल->लीन<sup>१५</sup>-

-नस्य छसू २, ४ : १.  
 पुरोहित-गोत्र-प्रवर<sup>१६</sup>-रः  
 वैध ४, ८, १३.  
 पुरोहित-प्रवर-रः आश्रौ  
 १२, १५, ४; वौश्रौ २४, २८ : ४;  
 वौश्रौ ५४ : ३; -रेण शाश्रौ  
 १, ४, १७; वाश्रौ १, ३, ४, २०;  
 हिश्रौ २, १, ५७; २१, ३, १७.  
 पुरोहिता(त-अ)मात्य-नृप-  
 -पाः अप ६४, ४, १.  
 पुरोहिता(त-आ)पैय-न्येण  
 काश्रौ ३, २, १०.  
 पुरो-हिति<sup>१७</sup>-तिः ऋप्रा ४, ९,  
 ३१.  
 पुरोहिति(क>)का->  
 पौरुहितिक-पा.) पाग ४, १,  
 ११२.  
 पुरो-धृत्य(ति-अ)नुपुव्-ग-  
 (र्म>)र्मा<sup>१८</sup>-र्मा अश्र ५, १०.  
 पुरो(रस-स्)नुवाक्या<sup>१९</sup>-क्यया  
 भाशि ४८; -क्या आश्रौ ३, ९,  
 ३; शाश्रौ; -क्याः शाश्रौ ५, १६,  
 २; ६, ११, १२×४; आपश्रौ;  
 -क्याभिः शुप्रा ३, ९२; -क्याम्  
 शाश्रौ ९, २५, २; आपश्रौ;  
 -क्यायाः आश्रौ २, १५, १४;  
 शाश्रौ; -क्यायाम् वौश्रौ ३, १७:  
 १७; २४ : १३; -क्यासु हिश्रौ  
 २१, २, २१; -क्ये शाश्रौ ३, १६,  
 ८; ७, २, २×४; आपश्रौ.  
 पुरोनुवाक्या(क्या-अ)धिकार-  
 -रः मौसू ३, ७, ४५.  
 पुरोनुवाक्या-लक्षण-णानि  
 शाश्रौ १, १७, १४.

a) = पुरस्ताद्-ग्रन्थि-। b) वैप १ द्र.। c) वैप १, २०३७ W द्र.। d) विप.। वस.। e) तु.  
 पागमः। f) विप. (आपैय-।) तस्येदमीयः न्यः प्र. उसं. (पा ४, ३, १२९)। g) ख > ईनः प्र. (पा ४, १,  
 १३९)। h) विप.। वस. > दस.। i) विप. (अतिजगती-)। वस. > कस. > वस.। j) °धृतिद्वयनु° इति  
 पाठः ? यनि. शोधः (तु. सात. W. च)।

पुरोनुवाक्या-वत् शाश्रौ ३, ७, ७.  
 पुरोनुवाक्या-व(त्)ती- -तीषु  
 हिश्रौ ८, ६, ८.  
 पुरोनुवाक्या-संप्रैष- -षः हिश्रौ  
 ८, ६, ८; २१, २, ३५; -षात्  
 हिश्रौ २१, १, ७.  
 पुरो(रस्-अ)नुष्टुभ<sup>०</sup>- -ष्टुप् अत्र  
 १, २५; ३, ५×५.  
 पुरो-वृहती<sup>०</sup>- -ती अत्र ८, २; १०,  
 ११×५; -त्यौ अत्र १२, १.  
 पुरोवाह(त>)ता- -ता अत्र  
 १२, १.  
 पुरोवाहता(त-अ) तिजागत-  
 ग(र्भे>)र्भा<sup>०</sup>- -र्भा अत्र ११,  
 ५.  
 पुरो(रस्-अ)भिकृति<sup>०</sup>- -तयः अत्र  
 १०, ५.  
 पुरो-भू<sup>०</sup>- -भूः वाश्रौ २, १, ७, १८५.  
 पुरो-मुख<sup>०</sup>- -खम् कौसू ९१, ३.  
 पुरो-यावन्<sup>०</sup>- -वानम् ऋप्रा ५,  
 ५३५.  
 ऋपुरो-युष्<sup>०</sup>- -युष्वा आश्रौ ८, १३,  
 २३; आपश्रौ २१, १२, ९; वाश्रौ.  
 ऋपुरो-रथ<sup>०</sup>- -थम् आश्रौ ६, २, ६;  
 शाश्रौ ९, ६, १२; वौश्रौ.  
 पुरो-रुच<sup>०</sup>- -रुक् आपश्रौ १९, २,  
 ८; ६, १५; ७, ३; वैश्रौ; -रुच्यः  
 आश्रौ ५, १०, ७; -रुचः शाश्रौ  
 ७, १०, ३; आपश्रौ; -रुचम्  
 शाश्रौ ७, ९, २; वौश्रौ; -रुचा  
 वौश्रौ १४, ७; ३१; ३४; -रुचाम्

आश्रौ ५, १०, ४.  
 पुरोरुग्-नाण- -णः शुश्र ३, २१७;  
 २३३; २४४.  
 ऋपुरो-चसु<sup>०</sup>- -सुः वौश्रौ ७, १४ :  
 ३४; वैश्रौ १५, २६ : १०;  
 ३२ : २; हिश्रौ ८, ६, २६; आपमं  
 १, ७, १९; -०सो माश्रौ २, ४,  
 १, ३३.  
 ऋपुरो-वात<sup>०</sup>- -माश्रौ<sup>१</sup> ५, २, ६, ४;  
 ६, २, २, ९; -तः आपश्रौ १९,  
 २६, १५; वौश्रौ; -ऋतम् काश्रौ  
 ४, ५, १७; आपश्रौ.  
 ऋपुरोवात-सनि<sup>०</sup>- -निः आपश्रौ  
 १७, ५, ५; वौश्रौ १०, ४५ : २४;  
 वाश्रौ.  
 पुरो-विराज्<sup>०</sup>- -राट् अत्र २, ५; ६,  
 ६८; ११, १; १८, ४<sup>२</sup>.  
 पुरो(रस्-अ)ष्टि<sup>०</sup>- -ष्टिः अत्र ४,  
 २९,  
 पुरो(रस्-उ)ग्निह<sup>०</sup>- -ग्निक् अत्र ४,  
 ४<sup>१</sup>; ११, ७; १३, १<sup>२</sup>; १४, २<sup>३</sup>.  
 पुरो-हविस्<sup>०</sup>- -विः वाधूश्रौ ४,  
 ९० : ३; -ऋविषि आपश्रौ १०,  
 २०, ५; वौश्रौ.  
 पुरा<sup>०</sup> ऋआश्रौ ३, ३, १; ४; ५, ५,  
 १८×५; शाश्रौ; या ३, १५५;  
 १९; ४, १७५×५; पा ८, १,  
 ४२; पुरा-पुरा माश्रौ ५, २, ९, ५.  
 पुरा-कल्प<sup>०</sup>- -ल्पः आपश्रौ २४, १,  
 ३३; हिश्रौ १, १, ११.  
 पुरा(रा-अ)प्रसिद्ध<sup>१</sup>- >०द्वा (द्व-

आ)श्रय-पूर्व-सिद्धि<sup>०</sup>- -द्विभिः  
 ऋप्रा ११, ६६<sup>२</sup>.  
 पुरा(रा-अ)प्रसिद्धि<sup>१</sup>- -द्वैः ऋप्रा  
 ११, ६९.  
 ?पुरा-रञ्जन<sup>०</sup>- -नयोः अत्र ६८, २,  
 ३०.  
 पुरा-वृत्त- -त्तः वृदे ४, ४६.  
 पुरो(रा-उ)दक्<sup>०</sup>- -कम् वौश्रौ २,  
 २ : २३.  
 पुरो(रा-उ)दय<sup>०</sup>- -यम् वैश्रौ २, २ :  
 १०; हिश्रौ ३, ४, २×५; -ये  
 वैश्रौ १८, १२ : ५.  
 पुराग- (>पौराणीय- पा.) पाग ४,  
 २, ८०.  
 पुराण<sup>०</sup>- पाग २, ४, ३१; ४, १, ४५;  
 -०ण विघ १, ५१; ५६; ९८, ६२;  
 -णः या ८, १९; १२, ३२;  
 -णम् आश्रौ ९, ११, २०५; १०,  
 ७, ८५; शाश्रौ १५, ८, २१५;  
 १६, २, २७<sup>१</sup>; १७, ६, २<sup>२</sup>; काश्रौ;  
 शंघ ११६ : ३८<sup>२</sup>; गौघ ११,  
 २१<sup>३</sup>; या ३, १९५; ४, १९; १०,  
 ३; -णस्य अत्र ४८, ७०; निघ  
 ३, २७; -ऋणाः आपश्रौ ४, ७, २;  
 भाश्रौ; आमिष्ट ३, ४, १ : १४<sup>४</sup>;  
 वौषि<sup>५</sup> १, ४ : १०; १५ : ३; -णात्  
 आपश्रौ ५, २७, ९; हिश्रौ; या  
 १२, २९<sup>६</sup>; -णानाम् काश्रौ ४  
 ६, ८; आपश्रौ ६, २९, ७; भाश्रौ;  
 वैघ ४, १, १२<sup>७</sup>; -णानि वैघ ३,  
 १६ : २; कप्र २, ४, १५; -णे

- a) संप्रे इति पाठः? यनि. शोघः । b) विप. । वस. । c) विप. । कस. > वस. । d) वैप १ द्र. ।  
 e) पाभे. वैप १, २०३९ k द्र. । f) पुरोवातसनि- इत्यस्य पूर्वावयवः द्र. । g) प<sup>०</sup> इति पाठः? यनि. शोघः  
 (तु. अष्टि- इति सात. w. [शौ ४, २६]) । h) संधिरार्षः । i) अधिकः पाठ इति कृत्वा परिहारात्मकः शोघः  
 (तु. सात. w. एतद्भावः) । j) प<sup>०</sup> इति पाठः? यनि. शोघः । k) सुस्पृषीयः समासः । l) उप. = अ-प्रसिद्धि-  
 इति कृत्वा भावे क्तः प्र. । m) द्रस. > वस. > कस. । n) मूको. अतु ०सिद्धयाश्रय इति संभाव्येतेति मङ्गलदेवः ।  
 o) अर्थः व्यु. च? । p) अस्. वा. क्वि. । q) = वाङ्मयीयविभागविशेष- । r) पाभे. वैप १, २०४० ll द्र. ।  
 s) पाभे. वैप १, २०४० 0 द्र. । t) = ऋपि-विशेष- । पौराणाम् इति पाठः? यनि. शोघः ।

शांश्रौ ४, १५, ८; वैश्रौ; आपघ  
१, १९, १३<sup>३</sup>; २९, ७<sup>३</sup>; २, २३,  
३<sup>३</sup>; हिध १, ७, ६३<sup>३</sup>; २, ५,  
१५८<sup>३</sup>; -णेन आग्नि ३, ६, ४ :  
४; हिपि १५ : २०; जैग १,  
२४ : १; या ९, ४३<sup>३</sup>; -णैः  
शांश्रौ १६, १, २५; वैश्रौ.  
पुराणी- पा ४, १, ४५.  
पौराण- -०ण वैध ४, १, १२<sup>३</sup>;  
-णम् वौध १, २, १<sup>०</sup>.  
पौराणिक- पावा ४, २, ६०.  
पुराण-गार्हपत्य- -त्यः वीश्रौ १८,  
२४ : १६; -त्यम् वीश्रौ २१,  
१५ : ३३; २५, ११ : १९; २६,  
७ : ३.  
पुराण-घृत-दिग्घा(ग्घ-अ)ङ्ग-  
-ङ्गः अप ६८, ५, १४.  
पुराण-दृष्ट- -ष्टाः वाघ १७, १२.  
पुराण-नव- -वयोः या ४, १७.  
पुराण-नामन्- -मानि निघ ३, २७;  
या ३, १९.  
पुराण-प्रोक्त- -क्तेषु पा, पावा ४, ३,  
१०५.  
पुराण-भस्मन्- -स्मनः वीश्रौ १७,  
३५ : ५; ३६ : १६.  
पुराण-वत्- निसू १, ७ : २०; वैध  
४, १, १२.  
पुराण-विद्या- -द्या आश्रौ १०, ७,  
८<sup>३</sup>.  
पुराण-वेद- -दः शांश्रौ १६, २,  
२७<sup>३</sup>.  
पुराण-सर्पिस्- -र्पिषा वीपि १, १३ :  
५.

पुराणा(ण-आ)चर्य- -र्यान् पाठ २,  
१२, २.  
पुराणा(ण-अ)र्थ- -र्थम् अप ४६,  
२, ९.  
पुराणे(ण-इ)तिहास-वेदाङ्ग-धर्म-  
शास्त्र- -स्त्राणि विध ३०, ३८.  
पुराणे(ण-इ)तिहास-व्याकरण-  
पार- -ग- -गः विध ८३, ७.  
?पुरारब्धादीनि निसू ३, १२ : ३४.  
पुरि- पाठ ४, १४३.  
पुरी( <रि )-तत्- पाठभो २, १,  
२६०; -तत्तम् आपश्रौ ७, २२,  
६; २४, १२; सांश्रौ; -तता शुभा  
३, १२९<sup>३</sup>.  
पुरीप, पा<sup>६</sup>- पाठ ४, २७; पाग ५, २,  
३६; -पम् शांश्रौ १०, ६, १३<sup>६</sup>;  
काश्रौ; वीश्रौ ४, २ : २०<sup>३</sup>; हिश्रौ  
११, १, ३<sup>१</sup>; ४<sup>२</sup>; या २, २२<sup>३</sup>; ४<sup>३</sup>;  
-पम् ऽ-पम् वीश्रौ २५, २७ :  
२९; २८ : १८; -पस्य वीश्रौ  
१०, ३९ : २; ४१ : २××; वैश्रौ;  
-पाः निसू ४, २ : १३; -पात्  
वैताश्रौ ६, १<sup>३</sup>; -पान् वैश्रौ  
२१, १० : ८; -पे आपश्रौ १६,  
१३, ३; वाश्रौ; पा ४, ३, १४५;  
-पेण काश्रौ १७, १२, २४;  
काठश्रौ; -पेषु काश्रौ ७, ५, ७, ८,  
७; -पैः वाघ ३, ५९; आपश्रु  
१०, ९; हिश्रु ३, ४८<sup>३</sup>.  
पुरीप-चित्- -तिः वीश्रौ १७, २४ :  
३; ५-८××; -तिम् वीश्रौ २२,  
८ : २; -तेः वीश्रौ २२, ८ : १.  
पुरीप-पद<sup>क</sup>- -दम् वृदे ८, १०२;

-दानि आश्रौ ७, १२, ११; निसू  
४, १ : २५; उनिसू ६ : ३१;  
-दैः निसू ४, २ : १.  
२पुरीप-प( द > )दा<sup>१</sup>- -दाः साश्र  
१, ६४२.  
पुरीप-प्रभृति- -ति वाश्रौ २, २,  
२, २०.  
पुरीप-भक्षण- -णम् अप ६४, ५,  
२; -णे सुध ४४.  
पुरीप-वत्- -वन्तम् हिश्रौ ६, १, ६.  
पुरीपवती- -ती वीश्रौ २६,  
२९ : १७-१९; -तीम् काश्रौ  
१७, ७, १; आपश्रौ २, २, ७; १७,  
३, २, वीश्रौ; -त्याः काश्रौ १७,  
१२, १५.  
पुरीप-वाहन<sup>०</sup>- पा ३, २, ६५; -नः  
वीश्रौ १०, ४ : १३.  
पुरीप-व्यूहन- -नम् वीश्रौ १९,  
१० : ५७.  
पुरीप-सहि(त >)ता- -ते काश्रौ  
१७, १२, १५.  
पुरीपा(प-आ)च्छ(ज >)जा- -जाम्  
वैताश्रौ २९, ५.  
पुरीपा(प-आ)धान<sup>म</sup>- -नम् विध  
९६, ९१.  
पुरीपा(प-अन्त >)न्ता<sup>१</sup>- -न्ता  
आपश्रु १०, ९; हिश्रु ३, ४८;  
-न्ताः वीश्रौ १९, ८ : ४.  
पुरीपा(प-आ)हरण- -णम्  
काश्रौ १६, ५, १०.  
पुरीपा(प-आ)हुति-सहस्र- -स्रम्  
गोश्रु ४, ९, १२.  
पुरीषित- पा ५, २, ३६.

a) वाङ्मयीयविभागविशेष- । b) व्यप. । c) तस्येदमीयः अण् प्र. । d) सपा. णविद्या

<> णवेदः <> मास १३, ४, ३, १३ पुरीणम् इति पामे. । e) वैप १ द्र. । f) पामे. वैप १, २०४१ g द्र ।  
g) ऋकूपादविशेषसंज्ञा- । h) पू० इति पाठः? यनि. शोधः । i) पाठः? (तु. टि. सामपुरीषम् [आपश्रौ १७,  
२५, ४]) । j) वैप २, ३खं. द्र. । k) = (महानाम्नीषु पुरीपस्थानीय-) संघायक-पद- (तु. आश्रौ. भाष्यम्). ।  
l) विप. । वस. । m) = शरीरस्थानविशेष- । उस. उप. अधिकरणे क्त ।

पूरीपिन्- -विणः भाश्रौ ६, २,  
६, २६; वाश्रौ २, २, ५, १४;  
चाश्र ३० : ७; -०विणः आमिण्ट  
२, ५, १० : ३०.

पूरीप्य- -०प्य आश्रौ २, ५,  
१२; शाश्रौ २, १५, ४; आमिण्ट  
२, ७, ३ : १३; ३, १०, ३ : २१;  
-प्यः आश्रौ २, ५, १२; शाश्रौ;  
-प्यम् काश्रौ १६, २, ११; १३;  
३, १२; आपश्रौ; -प्याः आपश्रौ  
१७, २३, १२; वौश्रौ; -प्यासः  
माश्रौ ४, ८, २०; वाश्रौ; वैश्रौ  
१८, १६ : ३०<sup>१०</sup>; -प्येभ्यः ऋश्र  
२, ३, २२.

पूरीप्य-चित्ति- -तये आश्रौ ४,  
८, १८.

पूरीप्य-वाहन- पा ३, २, ६५.

१पुरु- पाठ १, २३; -रु पूआश्रौ  
४, १३, ७; ६, ४, १०; पूशाश्रौ  
६, ४, ९; ९, १२, ४; १८, ३, २०;  
निसू; या २, ११; ५, ७<sup>१</sup>कृ;  
६, २१<sup>१</sup>कृ; -रुः वौश्रौ १८,  
१४ : ६<sup>१</sup>कृ; -कृणि आश्रौ ३,  
१०, ६; ४, १, २३; आपश्रौ;  
वैताश्रौ २४, १०.

पुरु-काम- -मः या ६, ४.

पुरु-कुत्स- पाग ४, १, १८; १०५.

पौरुकुत्स- -०त्स<sup>१</sup> आपश्रौ  
२४, ८, ९; वौश्रौ २० : ४.

पौरुकुत्स- पा ४, १, १०५;  
-०त्स<sup>१</sup> आश्रौ १२, १२, २; वैष  
४, ३, ४; -त्स्यः ऋश्र २, ४, ४२;  
ऋप्रा १८, ९<sup>१</sup>.

पौरुकुत्साय(न>)नी-

पा ४, १, १८.

पुरुकुत्स-वत् आपश्रौ २४, ८, ९;  
वौश्रौ २० : ५; वैष ४, ३, ४.

पूरुत्तम- -मम् काश्रौ ४, २, ४३<sup>१</sup>कृ;  
-मस्य शाश्रौ १०, १०, ५; १४,  
२४, ४×४; -मानि आश्रौ ८, ७,  
२३; शाश्रौ १२, ५, ५; -मासः<sup>१</sup>  
आश्रौ ४, ७, ४; शाश्रौ ५, १०, ८.

पूरुत्ता- -ता अप्रा ३, ४, १<sup>१</sup>कृ.

पूरुत्ता-शाश्रौ १३, १२, १३;  
आपश्रौ ३, १३, १; २४, १२, ६;  
वौश्रौ; या ९, १३<sup>१</sup>कृ; पा ५, ४,  
५६.

पूरुत्तस- -सम् आश्रौ ३, ५, ९;  
आपमं १, ७, २; तैप्रा १६, १९.

पूरुत्तस- पाठमो २, १, ३४५.

पूरुत्तस्मो<sup>१</sup> काश्रौ २५, १०, १५;  
शुअ १, ५१८.

पूरुत्तधा<sup>१</sup> आश्रौ ४, १, २३; आपश्रौ  
७, ६, ७; वौश्रौ; वाश्रौ १, ६,  
२, ४<sup>१</sup>कृ; या १०, ३४<sup>१</sup>कृ.

पूरुत्तग्- -ग्गाय ऋप्रा ५,  
५१<sup>१</sup>कृ.

पूरुत्तशु-विट्-कुल<sup>१</sup>->ल्ला(ल-अ)

श्वरीप-बहुयाजिन्- -जिनाम्  
शांश्र १, १, ८.

पूरुत्तजात- -तस्य ऋप्रा ८, ४२.

पूरुत्तप्रिय- -यः या ५, २; शुप्रा  
४, ७३; -या शाश्रौ ११, ९, ३;  
ऋप्रा ५, ५८.

पूरुत्तभुज- -भुजा ऋप्रा ७, २३.

पूरुत्तभोज- -जाः अप्र ४८,

१०१; निघ १, १०.

पूरुत्तमन्- -नाः या ९, १५.

पूरुत्तमीढ, ल्ह<sup>१</sup>- -ढः साश्र १, ६; ४९;  
२, १०४; -ल्हम् वृदे ५, ६१;  
८०.

पौरुत्तमीढ, ल्ह<sup>१</sup>- -ढम् निसू  
५, ९ : २३; -ढे लाश्रौ ७, ८,  
१४; -ल्हम् शाश्रौ १२, ९, १७.

पूरुत्तमीढ<sup>१</sup>, ल्हा (ल्ह-अ) जमीढ,  
ल्ह- -ल्हौ ऋश्र २, ४, ४३; शुअ  
३, ८९; १८०; अश्र २०, १४३.

पूरुत्तथ- -थः या ११, २३<sup>१</sup>कृ.

पूरुत्ततावन्- -राव्णः<sup>१</sup> द्राश्रौ ६,  
४, ८; लाश्रौ २, १२, ९.

पूरुत्तरूप, पा<sup>१</sup>- -पम् आमिण्ट २,  
५, ३ : २०; वौश्र ३, ७, १६;  
-पाः हिश्रौ १०, २, ८.

पूरुत्तवर्ष- -र्षसम् या ११,  
२१<sup>१</sup>कृ.

पूरुत्तवार- -०र ऋप्रा १४, ४०.

पूरुत्त(श्>)श्-चन्द्र<sup>१</sup>- -न्द्रम् उस्  
६, ५<sup>१</sup>कृ.

पूरुत्तपन्ति- -न्तिम् ऋप्रा ५,  
३०; १४, ४०; -न्ती निसू ९,  
९ : १०९; -न्त्योः उस् ५, ३.

पूरुत्तपु(१- -०त् आश्रौ  
५, ४, ३; विष ९८, ३५९; -तः  
अप १, ४०, ५; अशां १०, ५;  
-तस्य वैताश्रौ ३२, ३.

पूरुत्तसंभृत- -तम् आमिण्ट २, ३,  
५ : २०<sup>१</sup>कृ.

पूरुत्तस्थ- -स्थक् शाश्रौ १८,  
१, ८.

a) वैप १ द्र. । b) प्यसः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. ऋ ३, २२, ४) । c) पामे. वैप १, ९६८ a  
द्र. । d) वैप १, २०४२ i, २०४३ k द्र. । e) पामे. वैप २, ३६. पुरूपि तैत्रा ३, ७, १३, १ टि. द्र. ।  
f) व्यप. । व्यु. ? । g) परस्परं पामे. । h) वैप १, २०४४ l द्र. । i) शोधा इति पाठः? यनि. शोधः  
(तु. पूर्वापरे स्थले) । j) वस. >कस. >पस. । k) विप. । वस. । l) =साम-विशेष- । m) शुअ. पाठः ।  
n) वैप १, २०४६ u द्र. । o) पामे. वैप १, २०४७ g द्र. ।



पुरु-हन्मन्<sup>a</sup> - न्मा ऋञ्च २, ८, ७०;  
साञ्च १, २४३××; अञ्च.

पौरुहन्मन्<sup>b</sup> - नम् लाश्रौ ७, ३,  
१५; निसू २, २ : १८.

पुंरुहूत<sup>a</sup> - -०त आश्रौ १, ६, १;  
३, ७, ११××; शाश्रौ; या १,  
४; ५, २४; -तः ऋप्रा ७, २३;  
-तम् वौश्रौ २७, ६ : ८; या ६,  
२६.

पुरु-> पुंरु-तम<sup>a</sup> - मम् ऋञ्च  
२, ६, ४५; ऋप्रा ९, ७; १७, ४८.

पुरुन्व<sup>c</sup> -> ०वा (व-आ)र्द्धव-  
चौ शंघ २१०<sup>d</sup>.

पुरुन्वस्<sup>e</sup> - पाठ ४, २३२; फि  
६४; -०वः या १०, ४७<sup>f</sup>;

-वसम् शंघ ११६ : ६२<sup>g</sup>; वृदे  
२, ५९; -वसि वृदे ७; १४७;

-पुंवाः काश्रौ ५, १, २५; आपश्रौ  
७, १२, १३; वौश्रौ; या १०,  
४६६.

पौरुवस्<sup>e</sup> - ०स आश्रौ  
१२, १५, ५; आपश्रौ २४, १०,  
१२; वौश्रौप्र ५२ : १; हिश्रौ  
२१, ३, १६; वैध ४, ८, १०<sup>h</sup>;

-सौ वौश्रौ १८, ४५ : ३६.  
पुरुवोन्वत् आपश्रौ २४,  
१०, १२; वौश्रौप्र ५२ : २; हिश्रौ  
२१, ३, १६; वैध ४, ८, १०<sup>h</sup>.

पुरु-रुच<sup>a</sup> - रुचम्<sup>b</sup> निसू ८, ६;  
२८<sup>c</sup>.

पुंरु-वसु<sup>a</sup> - सुः आश्रौ ५, ५,  
८; ६, १<sup>d</sup>; शाश्रौ; काश्रौ २, ११,  
१६<sup>e</sup>; २५, ५, ३०<sup>f</sup>; -०सो  
आश्रौ ७, ४, ४; शाश्रौ २, ५, ३;  
११, ११, ११<sup>g</sup>××; वैताश्रौ<sup>h</sup> ३२,  
९; ४१, १३; ऋप्रा २, ४६; शुप्रा  
३, ९७<sup>k</sup>.

पुंरु(रु-उ)रु<sup>a</sup> - ?रुणा आश्रौ ७,  
२, २; शाश्रौ १२, १, ३; ऋञ्च.

पुर्व(रु-अ)च्, ज्न्->पुरुची<sup>a</sup> -  
-चीः आपश्रौ ५, १, ७; ९, १२,  
४; १४, २२, ३; भाश्रौ.

पुर्व(रु-अ)णीक<sup>a</sup> - ०क शाश्रौ ३,  
५, १०; तैप्रा ७, १२.

?रुह<sup>a</sup> - रुः साञ्च १, ८८.

पुरु-काम - प्रम्. १पुरु-द्र.

?पुरुध्यवानः वाश्रौ १, ५, ४, २४<sup>f</sup>.

पुरुमद्ग<sup>m</sup> -> पौरुमद्ग<sup>b</sup> - द्रम्  
लाश्रौ ८, ५, ११; निसू ६, १० :  
२४; -द्गे लाश्रौ ७, २, १०; १२.

पुरुमीढ - प्रम्. १पुरु-द्र.

पुरुष<sup>a</sup> - पाठ ४, ७४; पाग ५,  
१, १३०; पावाग ८, २, १८<sup>o</sup>;  
-०ष विध ९८, ८३; -षः  
आश्रौ ३, १०, १०; १०, ९,  
२<sup>q</sup>; शाश्रौ ४, ५, ८<sup>r</sup>; ९, २३,  
४; १५, १९, १<sup>s</sup>××; काश्रौ;  
लाश्रौ ७, ५, ९; निसू ३, १३:  
९; ५, ७ : ४; कौश्र १, १२, ६<sup>t</sup>;  
विध ९७, १५<sup>u</sup>; काश्रु ५, ५<sup>v</sup>;

९<sup>w</sup>; आपश्रु ९, २; १५, ७; १८,  
६; १९, १; ९; वौश्रु १ : ८; ८ :

६; १०; १३; १५; १७; ६; हिश्रु  
३, २, १; ५, १०; ६, १०; १६; शुञ्च  
३, १३३<sup>x</sup>; १३७<sup>y</sup>; ४, १४५<sup>z</sup>;

अञ्च ३, ६<sup>aa</sup>; या १, १; १२; २,  
२××; पा ६, २, १९०; -षःऽषः

वौश्रौ ८, १९ : १०<sup>ab</sup>; ९, १३ :

३०; -षम् शाश्रौ १५, २०, १;  
१६, १२, १७; १५, ५; काश्रौ;

शंघ ३७१<sup>ac</sup>; विध ९७, १६<sup>ad</sup>; या  
१, १३; ८, २२<sup>ae</sup>; १४, ६; -षम्ऽ

-षम् आज्यो ९, १; -पुष्य  
शाश्रौ १२, २०, २; काश्रौ २४,

७, ३३; आपश्रौ १६, २७, १४;  
२९, २<sup>af</sup>; वौश्रौ; हिश्रौ ११, ८,

४<sup>ag</sup>; चाञ्च १४ : ४<sup>ah</sup>; ३९ :

४<sup>ai</sup>; ४२ : १३<sup>aj</sup>; या ९, २८; १४,  
७; -ष्यऽऽष्य द्राश्रौ ११,

३, १०<sup>ak</sup>; लाश्रौ ४, ३, ११; -षाः  
काश्रौ १७, २, १८; २०, ६, २१;

वौश्रौ; कौश्र १, १२, ६<sup>al</sup>; शांश्रु १,  
१९, १०<sup>am</sup>; भाश्रु १, १८ : ८<sup>an</sup>;

जैश्रु १, २२ : ७<sup>ao</sup>; -पुंषाः  
वौश्रौ १०, २ : १२; ४ : २२;

द्राश्रौ ७, ३, २; लाश्रौ ३, ३, २;  
-षाणाम् काश्रौ १, ७, १८; २२,

३, २०; वाधूश्रौ; -पात् शाश्रौ  
१२, २२, २<sup>ap</sup>; काश्रौ १५, ४, २६;

आपश्रौ; पा ४, १, २४<sup>aq</sup>; -षान्

a) वैष १६. । b) = साम-विशेष- । तेनदृष्टीयः ऋण प्र. । c) विश्वेदेव-विशेष- । d) सप्र. पुरुस्वाद्वाचौ

<>माद्रवं पुरुस्वसम् इति पाठे. । e) अपत्याद्यर्थे ऋण प्र. । f) पौरवस् इति पाठः? यनि. शोधः ।

g) ष्वसवत् इति पाठः? यनि. शोधः । h) पाठे. वैष १, २०३९ f द्र. । i) तु. चौसं. । पुरु<sup>o</sup> इति अच्यु. ।

j) पाठे. वैष १, २०३९ k द्र. । k) पाठे. वैष १, २०३९ n द्र. । l) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । पाठः? पू इति

शोधः (तु. ऋञ्च २, ५, १६) । m) व्यप. (अङ्गिरस्-) । व्यु. ? । n) = प्रमाण-विशेष- (काश्रु ५, ५ प्रम्.) o) तु.

पागम. । p) सपा. वैष २, ३ खं. भवति ऐत्रा ७, १५ टि. द्र. । q) सपा. ष्वः <> ष्वे इति पाठे. । r) = ऋषि-

विशेष- । s) = देवता- । t) = विष्णु- । u) पाठे. वैष १, २०५१ b द्र. । v) पाठे. वैष १, १०१९ n द्र. ।

zw) पाठे. वैष १, २०५२ i द्र. । x) वैष १, १६६४ m द्र. ।

आपश्रौ २०, २४, ७; २५, ११;  
माश्रौ; या २, ६; -पाय शांश्रौ  
१६, १२, २०; वौश्रौ; -षे आश्रौ  
१०, ९, २<sup>३</sup>फं; शांश्रौ १६, ६, १फं;  
काश्रौ; शंश्रु १, १९, ६<sup>३</sup>फं; पा  
६, ३, १०६; -षेण शांश्रौ १६,  
१३, १; आपश्रौ; या २, ३फं;  
-षेभ्यः शांश्रौ १६, ९, २२;  
आपश्रौ; -षेषु अप ७१, १७,  
१०; विध; -षैः अप ११, २, ४;  
१६, २, १; ६८, २, ४५; विध ५,  
१८७; ४३, ३३; -षौ आपश्रौ  
९, १४, ७; माश्रौ ९, १६, १३;  
कौसू २०, ३४.

पुरुषी<sup>०</sup> -पी आपश्रौ २०,  
१७, ६; वौश्रौ १५, २८ : १८फं;  
हिश्रौ १४, ३, ५५; -षीणाम्  
ऋप्रा ९, ४४फं; -षीम् आश्रौ  
१२, ६, ३०; आपश्रौ.  
पौरुष<sup>०</sup> - पा ५, १, १३०; २, ३८<sup>०</sup>;  
-षः वाधुश्रौ २, २: ५; विध २०,  
१६; -षम् सु ११, ५<sup>०</sup>; अप २, १,  
२<sup>०</sup>; वाध; -षस्य वृदे ७, १४३;  
-षाणाम् विध २०, १९.

पौरुषी -पी अप ५८<sup>२</sup>, २,  
३; -पीः वौश्रौ २९, १३ : २१;  
-पीम् शांश्रौ १३, २९, २१फं;  
-ष्यः वृदे ८, १०९.

पौरुषेय- पा, पावा ५, १, १०;  
-कंयम् अप ३२, १, १५; अश्र  
१९, २०; -कंयात् हिश्रु १, ११,  
८; कौसू ५५, १६; -षेण कौसू  
११२, १फं.

पौरुषेयी- ऋयाः शुप्रा ४,

१५३फं.

पौरुष्य<sup>१</sup> -ष्यम् अप ३१, २, ५;

शुप्रा ८, ३०.

पुरुष-कर्षत्रय- -यम् विध ७४, ५.

पुरुष-कल्प- -ल्पेन मीसू ६, ६, ३६.

पुरुष-काम- -मः हिश्रौ १७, ८, २३;

-मस्य क्षुसू १, ६ : ७.

पुरुष-कार<sup>२</sup> -रात् अप २, १, ३.

पुरुष-क्षय<sup>३</sup> -ये अप ५२, ७, १.

पुरुष-नाति<sup>१</sup> -तिः वौध ३, १०, ११;

गौध १९, १३.

पुरुष-नार्हा<sup>१</sup> -र्हा या १, १४.

पुरुष-नात्र- -त्रम् कौसू ११, २०.

पुरुष-चतुर्थ<sup>१</sup> -र्थम् आपश्रु १९,

९; हिश्रु ६, २९; -र्थेन आपश्रु

१८, ७; हिश्रु ६, ११.

पुरुष-चिति<sup>०</sup> -तिम् माश्रौ ६, १,

८, १; वाश्रौ २, १, ७, ७.

पुरुष-च्छन्दस्<sup>१</sup> -न्दसः निसू ६,

८ : ३१<sup>३</sup>; ७, १२ : ६.

पुरुष-नृतीयवेला- -लायाम् वौश्रु

८ : १६.

पुरुष-त्रा पा ५, ४, ५६.

१ पुरुष-देवता<sup>६</sup> -ताभ्यः काश्रौ २१,

१, १३.

२ पुरुष-देवता- > ष्व(त्य >) ल्या-

-स्याः अश्र १९, ६; साश्र १,

६१८-२२.

३ पुरुष-देव(त >) वा<sup>१</sup> -ताः

उनिसू ८ : २६.

पुरुष-द्वेपि(न >) णी- -णीन् शंघ

८२.

पुरुष-धर्म- -र्मः काश्रौ ७, २, २१;

मीसू ३, ४, १४<sup>३</sup>.

पुरुषधर्म-त्व- -त्वात् मीसू ९,  
४, ३८.

पुरुष-ध्यान- -नम् विध ९७, ८.

पुरुष-निःश्रेयसा(स-अ)र्थ- -र्थम्

वाध १, १.

पुरुष-पञ्चम- -मे काश्रौ १६, ८, २.

पुरुष-पीडा-कर- -राः विध ५, ७५.

पुरुष-प्रधां(न >) ना<sup>१</sup> -ना वाध

५, १.

पुरुष-प्रमाण<sup>१</sup> -णम् काश्रु ५, ४;

-णे काश्रु ५, ७; १०.

पुरुष-त्राधित-त्व- -त्वात् पावा १,

४, ९९.

पुरुष-भेद- -दात् काश्रौ १०, २,

२२.

पुरुष-मर्म-ज्ञ- -ज्ञाः अप ३३, ७,

५.

पुरुष-मात्र- -त्रम् काश्रौ २१, ३,

२७; आमिष्ट ३, ८, १ : ३१;

वौषि १, १५ : १०फं; -त्रस्य

आपश्रु ९, ६; हिश्रु ३, २५;

-त्राणि आपश्रौ १६, १७, १०;

माश्रौ ६, १, ५, ३१; वाश्रौ;

-त्रेण वौश्रौ १०, १९ः ७; वैश्रौ.

पुरुषमात्री- -त्री आपश्रौ ७, २,

१६.

पुरुष-मित्र- -त्रम् शंघ ११६ :

५२<sup>०</sup>.

पुरुष-मुक्ता<sup>१</sup> -त्वाः कौसू १०४,

२फं.

पुरुष-मेघ<sup>०</sup> -घः काश्रौ २१, १, १;

आपश्रौ २०, २४, १; २२, २१,

१५; वौश्रौ; -घम् शांश्रौ १६,

१०, १; -घस्य वैताश्रौ ३८, १०;

a) पा.मे. पृ १६०१ र द्र. । b) वैप १ द्र. । c) विप. (दिवस- सूक्त- प्रमृ.) । तस्येदमाद्यर्थे कण् प्र. । d) = पुरुषप्रमाण-वत्. । e) = पुरुषार्थ- । f) ष्यन् प्र. ढसं. (पा ५, १, १२४) । g) = पुरुषार्थ- । उप. भाप. < √ कृ. । h) उप. < √ क्षि (क्षये) । i) नाप. (सामन्- ) । j) वैप २, ३३. द्र. । k) पस. । l) विप. । वस. । m) पुरुषः इति जीसं. । n) = वायु-भेद- । पुरुषमित्रः इति शक. [वायुशब्दे] ।

-धे हिश्रौ १४, ६, १०; २८<sup>३</sup>;  
 वैताश्रौ ३७, ९; -धेन शाश्रौ १६,  
 १०, १<sup>३</sup>; वाधूश्रौ ४, १९: ३१;  
 हिश्रौ १४, ६, १५.  
 पौरुषमेधिक<sup>३</sup>- -कम् शाश्रौ  
 १६, १५, २; ४; काश्रौ; -कान्  
 हिश्रौ १४, ६, ३.  
 पुरुषमेघ-वत् काश्रौ २१, २, १३;  
 वैताश्रौ ३८, १०.  
 पुरुष-योग-> ँगि-मन्त्र-संस्का-  
 र- -रयोः काश्रौ १, ७, २०.  
 पुरुष-रत्नस<sup>३</sup>- -सम् कौसू ९५, ३<sup>१</sup>.  
 पुरुष-रूप<sup>३</sup>- -पः वौश्रौ ९, १६: ५<sup>१</sup>;  
 -पम् कौशू ९५, १<sup>१</sup>; -पेण  
 शाश्रौ १५, १८, १; १९, १<sup>५</sup>; वौश्रौ  
 १७, १८: ८; वाधूश्रौ ४, १०९:  
 १.  
 पुरुष-रेपि(व>)णी<sup>३</sup>- -णीम् कौसू  
 ५८, १<sup>१</sup>.  
 पुरुष-लक्षण<sup>३</sup>- -णः अप ५०, २, ६.  
 पुरुष-वत् आपश्रौ १६, २२, ८;  
 हिश्रौ १४, ६, २८.  
 पुरुष-वत्- -वत् आपश्रौ ६, २९,  
 १; हिश्रौ ३, ८, १४.  
 पुरुष-वध- -धः आपध १, २१, ८;  
 हिध १, ६, ३८; -धे आपध २,  
 २७, १६; हिध २, ५, २३५.  
 पुरुष-वशा-कुमारी-वेहत्- -हतः  
 गौध ७, १४.  
 पुरुष-वाच्<sup>३</sup>- -वाचः वाधूश्रौ ३,  
 १८: १५.  
 पुरुष-वाजिन्- -जिनः अप ७०<sup>३</sup>,  
 १६, ३.

पुरुष-वाहम् पा ३, ४, ४३.  
 पुरुष-विकल्प- -ल्पम् वौषि ३, ८,  
 १<sup>६</sup>.  
 पुरुष-विग्रह<sup>३</sup>- -हान् वृदे ५, ६८.  
 पुरुष-विज्ञेय- -यम् आज्यो ९, २.  
 पुरुष-विद्या (द्या-अ)नित्यत्व-  
 -त्वात् या १, २<sup>४</sup>.  
 पुरुष-विध<sup>३</sup>- -धम् शाश्रौ १६, १४,  
 ८; १४; -धाः या ७, ६; -धानाम्  
 या ७, ७.  
 पौरुषविधिक<sup>३</sup>- -कैः या ७,  
 ६<sup>३</sup>; ७<sup>३</sup>.  
 पुरुषविधाताम्<sup>३</sup> चाञ्च १६: ३०;  
 ३९: ७.  
 पुरुष-विधि- -धिम् काश्रौ २५, ८,  
 १३; अप्राय ६, ७.  
 पुरुष-विशेष- -पः या १, १६.  
 पुरुष-व्याधि-पीडित- -तः शंघ  
 ३७८.  
 पुरुष-व्रत<sup>३</sup>- -तः जैश्रौप ४<sup>१</sup>; -तम्  
 जैश्रौप ३; द्राश्रौ २, १, १२;  
 लाश्रौ; -ते विध ५६, १५.  
 पुरुष-शक्त्य(क्ति-अ)पराधा(ध-अ)  
 नुबन्ध-विज्ञान- -नात् गौध  
 १२, ४८.  
 पुरुष-शत- -तानि वाधूश्रौ ३, ६९:  
 ४२; ७५: २××.  
 पुरुष-शिरस्- -रः काश्रौ १७, ५,  
 १४; आपश्रौ १६, ६, २<sup>१</sup>××;  
 वौश्रौ; -रसः माश्रौ ६, १, ७, ३०;  
 वाश्रौ २, १, ७, ७; हिश्रौ ११, ७,  
 ५४; -रसा वाश्रौ २, १, २, १२;  
 -रसि आपश्रौ १६, २६, १३;

कौसू १५, १.  
 पुरुषशिरः-प्राण<sup>३</sup>- -णेषु वैश्रौ  
 १८, १९: ४.  
 पुरुष-शीर्ष- -र्षम् माश्रौ ६, १, ७, २७.  
 पुरुष-शोणित-कर्दम-वाहि ( न-  
 >)नी- -नी अप ५३, ३, ५.  
 पुरुष-श्रुति- -तिः मीसू ४, १, ३; ६,  
 १, ३५; -तेः मीसू २, २, २८;  
 ६, २, ३.  
 पुरुष-संस्कार- -रः आपध २, २३,  
 .. ११; हिध २, ५, १६४.  
 पुरुष-संज्ञपन- -नम् काश्रौ १६, १,  
 १४.  
 पुरुष-संज्ञा- -ज्ञा पावा १, ४, १.  
 पुरुष-संमित- -तः आपश्रौ ३, १२,  
 १<sup>१</sup>; वौश्रौ २७, २: १०; माश्रौ;  
 -तम् आमिग ३, ४, ५: १०;  
 वौषि ३, १०, ३.  
 पुरुष-सामन्<sup>३</sup>- -म आपश्रौ १५,  
 १९, ११; १६, २२, ३<sup>१</sup>; माश्रौ  
 ११, २०, ७; वैश्रौ १८, १७:  
 ९<sup>१</sup>; -म्ना हिश्रौ ११, ७, २१.  
 पुरुष-सामर्थ्य- -र्थ्ये मीसू ३, ८, ३.  
 पुरुष-सूक्त- -क्तम् आमिग २, ४, ३:  
 १६; वैग ४, १०: ११; अप;  
 -क्तेन आमिग २, ५, ६: १७;  
 ३२××; वौषि.  
 पुरुषसूक्त-जपहोम- -माभ्याम्  
 विध ५५, ६.  
 पुरुषसूक्त-पूर्व- -र्वम् वैग ६,  
 ८: ९.  
 पुरुषसूक्त-विष्णुसूक्त- -क्ता-  
 भ्याम् वैग ६, २०: ८.

a) विप. । तस्येदमीयत् ठक् प्र. । b) मलो. कस. समासान्तप् टच् प्र. (पा ५, ४, १०३ L वैतु. °क्षस्-  
 इति P.W. प्रमृ. ?) । c) वैप १ द्र. । d) = पुरुष-रत्नस- । e) विप. । वस. । f) विप. । वस. वा उस.  
 (तु. वैप १) वा । g) ष्पाकृतिम् इति B. । h) पृ १५९ सत्य. अनित्यत्वात् इति नेष्टम् । i) वैप  
 २, ३ खं. द्र. । j) पाठः ? °विधताम् इति संभाव्येत । k) = साम-विशेष- । l) तद्वति वृत्तिः ।  
 m) पस. उप. = ज्ञानेन्द्रिय- [ तु. सप्र. माश्रौ ६, १, ७, २६ ] । n) मलो. कस. पूष. = पुरुषव्रत- ।

पुरुष-स्थानी (य >) या- -याम्  
 आपञ्च ९, १०; हिञ्च ३, २९.  
 पुरुषस्थनारायण्या (स्य-अ) यन-  
 -ने निस् १०, ८ : २८.  
 पुरुष-हित- -तम् वाश्रौ १, १, १, १.  
 १ पुरुषा (प-आ) कृति- -तिम् शाश्रौ  
 ४, १५, २२; आपश्रौ ९, ११,  
 २३<sup>c</sup> x x; माश्रौ.  
 २ पुरुषा (प-आ) कृति<sup>a</sup>- -तीनि  
 आप्राय ३, ८.  
 पुरुषा (प-आख्या >) स्थ- -स्थाः  
 मीस् १, १, २७.  
 पुरुषा (प-आ) धिपत्य-काम- -मः  
 गोश्च ४, ९, १.  
 पुरुषा (प-अ) नृत्- -ते वाघ १६,  
 ३४; वौघ १, १०, ३५.  
 पुरुषा (प-अ) न्त- -न्ते आपञ्च १८,  
 ९<sup>३</sup>; हिञ्च ६, १४<sup>३</sup>.  
 पुरुषा (प-अ) न्न- -न्नम् वौघ १, ६,  
 ४६<sup>b</sup>.  
 पुरुषा (प-अ) पनय- -यः मीस् १०,  
 २, १९; ३, ६५; -यात् मीस्  
 १०, २, २०; ३, ७३.  
 पुरुषा (प-अ) पराध- -धः या १, १६.  
 पुरुषा (प-अ) त्राधकत्व- -त्वस्य  
 पावा १, ४, ९९.  
 पुरुषा (प-अ) मिहोम-वत् काश्रौ  
 १७, १२, २६.  
 पुरुषा (प-अ) म्यास- -सः काञ्च ५,  
 ३; आपञ्च २१, १४; वौञ्च २१ :  
 १२; हिञ्च ६, ७१; -से काञ्च  
 ५, ४.

पुरुषा (प-आ) युष- पा ५, ४, ७७.  
 १ पुरुषा (प-अ) र्थ- -र्थाय मीस् ४,  
 १, ३.  
 पुरुषार्थ-त्व- -त्वात् मीस् ३, १,  
 ५; ६, २, ३२.  
 पुरुषार्थै (र्थ-ए) कसिद्वित्व<sup>c</sup>-  
 -त्वात् मीस् ६, २, १.  
 २ पुरुषा (प-अ) र्थ<sup>a</sup>- -र्थः मीस् ६,  
 २, २२; २५.  
 पुरुषा (प-अ) र्थ- -र्थात् वौञ्च १६ :  
 ७.  
 पुरुषा (प-अ) शन-मात्र- -त्रम् वैघ  
 २, १५, ४<sup>b</sup>.  
 पुरुषा (प-अ) श्व-गो (गो-अ) व्य  
 (वि-अ) ज- -जान् काश्रौ १६,  
 १, ८.  
 पुरुषा (प-अ) स्थि > स्थ<sup>d</sup>- -स्थस्य  
 वौश्रौ १८, ३६ : ३; २३, १८ :  
 ३०; -स्थे अप्रा ३, १, १७<sup>f</sup>.  
 \*पुरुषा (प-आ) ह<sup>e</sup>- > षाह-व-  
 (त् >) ती<sup>f</sup>- -तीः काश्रौ २५,  
 ७, १६.  
 पुरुषा (प-आ) कृति- -तिः वौश्रौ  
 १३, ४ : ८; आमिष्ट ३, ६, २ :  
 २०<sup>f</sup>; वौषि १, १० : १६<sup>f</sup>;  
 हिषि १ : १.  
 पुरुषा कृति-वत् काश्रौ १८, ५,  
 १९.  
 पुरुषो (प-उ) चय- -येन काश्रौ १६,  
 ८, २०; काञ्च ५, १.  
 पुरुषो (प-उ) त्तम- -म विघ १,  
 ५१; ५६; ५८; -मः वैष्ट ३, ४ :

१२; आञ्चो १३, ७; -मम् हिषि  
 १९ : ४; -मेन विघ ९९, २३.  
 पुरु-पन्ति- १ पुरु- द्र.  
 पुरुषां, पा<sup>g</sup> सिक<sup>h</sup>- (> पौरुषां, पा।  
 सकिन्- पा.) पाग ४, ३, १०६.  
 पुरु-, पुरु-त्तम- प्रष्ट. १ पुरु- द्र.  
 पुरो-डस्<sup>d</sup>- पा ३, २, ७१, -कंडा-  
 आश्रौ ६, ५, २५; या ६, १६;  
 -०डाः पा ८, २, ६७.  
 ?पुरोडा पाग ४, ४, ६२<sup>f</sup>.  
 पुरो-डाश<sup>l</sup>- पा ३, २, ७१.  
 पुरोडा (ला<sup>h</sup>) श<sup>d</sup> १- -शः आश्रौ ३,  
 ४, ४; १४, १३; १२, ८, ३३;  
 शाश्रौ; -शम् आश्रौ ३, १०, २६;  
 १२, ६, ९; शाश्रौ; या ४, १९<sup>f</sup>;  
 -शयोः काठश्रौ ६३; माश्रौ  
 १, २, ६, १७; मीस् १०, ८, ३४;  
 -कंडस्य आश्रौ ३, ५, ९; ५,  
 १७, ५; ६, ५, २५; शाश्रौ; -शाः  
 शाश्रौ १४, २, २०; ३, १; १३,  
 ८; काश्रौ; -शात् आपश्रौ २,  
 १०, ४; वौश्रौ १३, ३४ : ३ x x;  
 भाश्रौ; -शान् शाश्रौ १४, २,  
 १७-१९; १३, ४; ५; काश्रौ;  
 -शानाम् आश्रौ ५, ४, ७; शाश्रौ  
 ७, १, ७; काश्रौ; -शाभ्याम् द्राश्रौ  
 २, २, ३९; लाश्रौ १, ६, ३५;  
 मीस् १०, ८, ३४; -शाय माश्रौ  
 २, ३, २, २; ५, २, ८, ३३; -शे  
 काश्रौ २५, ८, १७; आपश्रौ १,  
 २५, १२; वौश्रौ; पा ४, ३, १४८;  
 -शेन आपश्रौ ३, १६, १७; ७,

a) विप. । वस. । b) सप्र. पुरुषान्नम् <> पुरुषाशनमात्रम् इति पाभे. । c) पत्. > वस. ।  
 d) वैप ६ द्र. । e) नाप. (पुत्प-नामन्-). पत्. उप. करणे क्त्वा < √भाह्. (< नैप्र. √भाप्  
 [आख्यायाम्]) । f) विप. [पुलिङ्गाभिधाना- (ओपधि-। वैतु. कर्कविद्याधरो भा √हे > \*भा-हति- इति, WSR.  
 भा-हत्- > इति च उप. इति ?)] । g) पाका. पाठः । h) व्यप. । व्यु. ? । i) पुरो-डाश- इति P. W.  
 (पुरोडाश- द्र.) । j) वैप १, २०५४ अ द्र. । k) शाश्रौ. पाठः । l) = [पुरोडाशसहचरित-] ग्रन्थ- इति विशेषः  
 (पा ४, ३, ७०) ।

२२, ११; ९, १, ३२, काश्रौंस;  
-शेभ्यः हिश्रौ ५, ५, १२; -शेषु  
आश्रौ ९, २, ६; ९××; हिश्रौ;  
-शैः आश्रौ ५, ४, १; ६, ११,  
६<sup>०</sup>; शांश्रौ; -शौ काश्रौ २, ५,  
१९; ८, १४; ३, ३, २३; आपश्रौ.  
पौरोडाश<sup>०</sup> - > १पौरोडाशिक-  
पा ४, ३, ७०.  
२पौरोडाशिक<sup>०</sup> -कम् वौश्रौ  
४, २: १; ५, २: १××; -का:  
वौश्रौ २०, १०: ३३<sup>d</sup>××; -केन  
वौश्रौ २१, ८: ३९; २५, ११:  
१०××; -कैः वौश्रौ २०, १०:  
३०<sup>d</sup>; ३२××.  
पौरोडाशीय<sup>०</sup> -यानाम् भाग्य १,  
९: ७.  
पुरोडाश-कपाल- -लम् आपश्रौ १,  
२२, २; हिश्रौ १, ५, ६४; -लानि  
आपश्रौ १२, ४, १; वौश्रौ; -ले  
आपश्रौ १, २०, ९; भाश्रौ; -लेन  
काश्रौ ३, ८, ७.  
पुरोडाश-गण- -णे आपश्रौ २४, ३,  
१७; हिश्रौ ३, ८, ६.  
पुरोडाश-तत्प्रधानत्व- -त्वात् आश्रौ  
३, ४, १२.  
पुरोडाश-त्व- -त्वम् वाधूश्रौ ४,  
१९<sup>२</sup>: १६.  
१पुरोडाश-द्वगल<sup>०</sup> -लम् आश्रौ ५,  
७, २<sup>६</sup>; ७.  
पुरोडाश-देवता- -ताम् आश्रौ ६,  
११, ५.  
पुरोडाश-धर्म- -र्माः काश्रौ १५, ९,  
२७.

पुरोडाश-निगम- -नेषु आश्रौ ३, ४,  
१३.  
पुरोडाश-निधान- -नाय वैश्रौ ११,  
९: १०.  
पुरोडाश-पयस्या-धाना- -नासु काश्रौ  
२, ८, ९.  
पुरोडाश-पिण्ड- -ण्डान् माश्रौ २,  
५, १, ३५.  
पुरोडाश-प्रमन्दा(न्दा-अ)लंकार<sup>०</sup>-  
-रान् कौसू ३२, २९.  
पुरोडाश-प्रमाण- -णम् अप २३,  
९, ५.  
पुरोडाश-मात्रा- -त्राः काश्रौ १०,  
५, ११; -त्राम् काश्रौ ९, ११,  
२३.  
पुरोडाश-वत् आश्रौ ३, ४, १३.  
पुरोडाश-वत्- -वतः कौसू २, २३.  
पुरोडाश-विकार- -रः मौसू ८, २,  
१०.  
पुरोडाश-वृगल<sup>०</sup> -लम् माश्रौ २, ४,  
१, ४०; ४९<sup>१</sup>.  
पुरोडाश-शकल- -लम् काश्रौ ९,  
१२, ९; आपश्रौ १२, २५, ६××;  
वौश्रौ; -लान् आपश्रौ १३, १२,  
९; वौश्रौ.  
पुरोडाश-शब्द- -ब्दम् आश्रौ ५,  
४, ७.  
पुरोडाश-श्रपण- -णात् आश्रौ ३,  
५, ४.  
पुरोडाश-संवर्त<sup>०</sup>- -र्तान् वैताश्रौ २२,  
२२; कौसू ३०, १८.  
पुरोडाश-सान्नाय्य- -य्ययोः वैश्रौ  
२१, ४: २; हिश्रौ २, २, २०.

पुरोडाश-स्थान- -ने वाश्रौ ३, २, ७,  
८६; वैश्रौ १७, १६: ६.  
पुरोडाश-स्विष्टकृत्- -कृतः आश्रौ  
३, ५, ९; काश्रौ १८, ६, १४.  
पुरोडाश-हर<sup>०</sup>- -०र विध ९८, ६७.  
पुरोडाशा(श-आ)दि- -दि आश्रौ ५,  
१३, ११; १७, ४; काश्रौ १०,  
१, २५; ५, ७; -दीनाम् काठश्रौ  
१३४.  
पुरोडाशा(श-अ)र्थ- -र्थानि हिश्रौ  
८, १, ४९.  
पुरोडाशा(श-अ)वदान- -नम्  
काठश्रौ १४; वैश्रौ ६, ८: ९.  
पुरोडाशा(श-आ)हुति- -तिम् हिश्रौ  
२, २, २४; -तीः आपश्रौ १२,  
३, १२; माश्रौ २, ३, ७, १४.  
पुरोडाशिक- पा ४, ३, ७०.  
पुरोडाशिन- -शिनः हिश्रौ १६,  
८, २१; निसू ५, १३: २०.  
पुरोडाशिनी- -न्यः आश्रौ १०,  
२; २४; काश्रौ २३, २, १३;  
आपश्रौ.  
पुरोडाशीय, या<sup>१</sup>- -याः वाधूश्रौ ४,  
८७: २; ९६: १; -यान् आपश्रौ  
१, १७, ९; वौश्रौ; -यानाम् वौश्रौ  
२०, ६: १५; २७××; -यानि  
वौश्रौ ६, ३४: ४; १६, ४: ९;  
२४, ३६: १५; -येभ्यः आपश्रौ  
१, १७, १०.  
पुरोडाशे(श-इ)डा- -डायाः शांश्रौ  
५, ३, ७.  
पुरोडाशेडा(डा-अ)न्त<sup>०</sup>- -न्तम्  
काश्रौ ४, ११, १५.

a) पामे. वैप १, २०५४ g द्र. । b) = पुरोडाशसंस्कारकमन्त्रं- । तस्येदमीयः अण् प्र. (तु. पाका.;  
वैतु. पासि. स्वाथे प्र. इति) । c) विप., नाप. (कर्म-विशेष-) । d) विप. (मन्त्र-) । e) विप. > नाप. (मन्त्र-  
[तु. पौरोडाश-]) । तस्येदमीयश् छण् प्र. उंस. (पा ४, २, १३८) । f) उप. वावि. = वृगल- (शकल- [तु. पामे.]) ।  
g) सप्र. श्वाहा <> श्वावृग° इति पामे. । h) द्रस. । प्रमन्द- = सुगन्धित-वनस्पति- इति MW. । i) वैप-२,  
३खं. द्र. । j) उप. = १पिण्ड- । k) विप. (विष्णु-) । l) वैप १ द्र. । m) विप. । वस. ।

पुरोडाशै(श-ए)कदेश-त्तव(ः)जैश्रौ-  
का १८७.  
पुरोडाश्य<sup>a</sup> - श्याः चाञ्च १:४;  
-श्यान् वैश्रौ ४, ४:७; ५:  
२×२; हिश्रौ; -श्यैः हिश्रौ २,  
८,६५; ५,१,१५.  
पुरो-दाश<sup>b</sup> - शान् वैश्रौ ७,८:१५;  
-शन वाघुश्रौ ४,१९<sup>c</sup>:१६.  
?पुरोह- > पौरुह- प्र√रूह >  
प्र-रोह- टि. द्र.  
√पूर्व पाधा. भ्वा. पर. पूरणे; चुरा.०  
उभ. निकेतने.  
पूर्वच्,ञ्च्- प्रसृ. १पुर्- द्र.  
√पुल् पाधा. भ्वा. पर. महत्त्वे;  
चुरा. पर. महत्त्वे संघाने च.  
पुल- (>पुल-स-, पुल्य- पा.) पाग  
४,२,८०<sup>d</sup>.  
पुलक<sup>e</sup>- पाठमो २,२,११०; पाग ५,  
२,३६; -कःम वृ २,२१:८;९.  
पुलकित्- पा ५,२,३६.  
पुलस्ति<sup>f</sup>- पाठवृ ४,१८०; पाग ४,  
१,१०५; -स्त्यः वैश्रौप्र ४:  
२<sup>g</sup>; -स्त्ये शुभ्रा ५,३७<sup>h</sup>६.  
पौलस्त्य- पा ४,१,१०५.  
पुलस्त्य<sup>i</sup>- पाठमो २, ३, ४; -स्त्यः  
अप ५२, १०, ४; -स्त्यम् अप  
४३,२,१५.  
पुलह<sup>j</sup>- हः अप ५२,४, १०; -हम्  
अप ४३,३,१६.

पुलाक- पाठमो २,२,१४.  
पुलिक- पाठमो २,२,१५.  
पुलिन<sup>k</sup>- पाठ २,५३; पाग २, ४,  
३१; ४, २, ८०; ,६३, ११८;  
-नेषु विघ ८५,५६.  
पौलिन्य- पा ४,२, ८०.  
पुलिन-व ( त >)ती- पा ६,  
३,११८.  
पुलिन्द<sup>l</sup>- पाठ ४, ८५; -न्दः वैघ  
३,१४,३;  
पुलिन्द-क<sup>m</sup>- -कैः अप ५०,२,५.  
पुलीक्य<sup>n</sup>- -याः अप ३,४,११<sup>o</sup>.  
पुल (= १पुल)- > णि पुल-काम<sup>p</sup>-  
-मः निघ ४,३; या ६,४६.  
पुल्ल(ल-अ)घ<sup>q</sup>- -घः या १२,३१.  
पुल्लप<sup>r</sup>- पावाग ८,२,१८.  
पुलोमन्<sup>s</sup>- > पौलोम<sup>t</sup>- -मान् वृदे  
७,५३.  
पौलोमी<sup>u</sup>- -मी ऋअ २, १०,  
१५९; वृदे ८,६३.  
पुल्लस<sup>v</sup>- पाठमो २, ३, १७४; -सः  
वाघ १८,५; वैघ; -सात् वैघ  
३, १५, १०; -सानाम् विघ  
१६,९.  
पौल्लस<sup>w</sup>- -सः आपघ २,२,६;  
हिघ २,१,२८.  
पुल्लस-मागघ- -घौ विघ १६, ५.  
√पुप् पाधा. भ्वा. दिवा. क्र्या. पर.  
पुष्टी; चुरा. उभ. धारणे, पोषति

या ५,१४; १०,३४.  
पुष्यति हिश्रौ १७, ५, २७; कौट  
३,१०,३०<sup>x</sup>; आश्रित; या १२,  
१६; पुष्यन्ति हिश्रौ १७, ७,९;  
नाशि २, १, ११; णिपुष्यति  
वैश्रौ २,९:१०; कौट २, १,  
१०; पुष्यामि आपमं २, ११,  
३२<sup>y</sup>; पुष्यताम् मात् २, ११,  
१२<sup>z</sup>; पुष्यतम् आपमं १,  
११, ७<sup>aa</sup>; पुष्येम शाश्रौ ३८,  
१५,५<sup>ab</sup>.  
पुष<sup>ac</sup> आपश्रौ ६,१७,६; णिपुषे-  
यम् आपश्रौ ४, १०, १; वैश्रौ;  
पेषम काश्रौ २,१,३<sup>ad</sup>.  
णिपुषोप आपश्रौ ४,५,५; भाश्रौ  
४,७,२; हिश्रौ ६,२,६; या १०,  
३४<sup>ae</sup>; णिपुष्यासम्<sup>af</sup> वैश्रौ ३,  
८:२५; ९:३; हिश्रु १, १८,४;  
पुष्यात्स कौत् ८२, १३<sup>ag</sup>.  
पोषयति वृदे २, ६३; पोषयेद्  
वैघ १, ७, ६.  
पुष्यते विघ १०,५.  
णिपुष्वस्- -प्वान् या १, ८; शैशि  
५५.  
णिपुष्ट- -ष्टम् शाश्रौ १६, ४, ४;  
आपश्रौ; या १०,१५<sup>ah</sup>; -ष्टस्य  
कौत् ७२, १४<sup>ai</sup>; -ष्टे हिश्रु  
२,१७,४<sup>aj</sup>; अप ६,१, ८<sup>ak</sup>; अञ्च  
३, १०<sup>al</sup>; अर्ष ३: २६<sup>am</sup>; -ष्टेषु

a) वैप १ द्र. । b) वैप २, ३खं. द्र. । c) तु. BPG. । d) =रोनाद्य- मणि-विशेष- [भात्] ।  
e) विप., व्यप. (ऋषि-) । f) बहु. <पौलस्त्य- । g) पामे. वैप १,२०५५ g द्र. । h) =ऋषि-विशेष- ।  
च्यु. ? । i) नाप. । व्यु. ? <√पुल् इति प्रायोवादः । j) नाप. (न्लेच्छ-) । व्यु. ? <√पुल् इति प्रायिकम् ।  
k) =पुलिन्दनिवासजनपद- । कः प्र. उत्सं. (पा ४,२,८०) । l) वैप १,२०४१ i द्र. । m) =पुल्ल- । तु. पागम. ।  
n) =दैत्य-विशेष- । व्यु. ? । o) अण्यर्थार्थे ऋण प्र. । प्रकृतिमान्नाऽभावः (पा ६,४, १७०) । p) =इन्द्राणी- ।  
q) =पुल्लस- । त्वार्थे प्र. । r) पा ३,१,५५ परानुष्टः द्र. । s) पामे. वैप २,३खं. पुष्यासम् नाश १४,९,४,२३  
टि. द्र. । t) पामे. पृ ११८७ ८ द्र. । u) पामे. वैप १,२०५६ g द्र. । v) पामे. वैप १ सहस्रपोष्टम् ना ४,  
२६ टि. द्र. । w) पामे. वैप १,२०५६ h द्र. । x) पामे. वैप १,२०५५ x द्र. । y) पामे. वैप १,२०५७ ८  
द्र. । z) पामे. वैप १,२०५७ f द्र. ।

शांश्रौ १२, १३; २; वैताश्रौ  
३२, १७; या १३, ४; -ष्टैः  
आपश्रौ ९, १४, १.  
पु(ष्ट>)ष्टा-वत्- -वन्तः ऋप्रा  
९, १७; उसू ४, १९.

पुष्टि<sup>१</sup>- -ष्टये कौसू ३, १२; -ष्टिः  
आश्रौ २, २, १७<sup>क</sup>; ६, ९, १;  
आपश्रौ; माश्रौ १, ६, १, १५<sup>क</sup>;  
वाश्रौ १, ५, २, १७<sup>क</sup>; हिश्रौ  
३, ७, २८<sup>क</sup>; हिगृ २, १७, २<sup>क</sup>;  
या १४, २२<sup>०</sup>; -ष्टिना अप्राय  
६, ६<sup>क</sup>; -ष्टिम् आश्रौ ३, १०,  
८; शांश्रौ; काश्रौ ५, १३, १<sup>क</sup>;  
आपश्रौ ४, ६, २<sup>क</sup>; १४, २८,  
४<sup>क</sup>; भाश्रौ ४, ८, ३<sup>क</sup>; वैश्रौ  
२१, १५ : १५<sup>क</sup>; हिश्रौ ३,  
७, १०५<sup>क</sup>; ६, २, ११<sup>क</sup>; १५,  
७, १२<sup>क</sup>; आमिष्ट १, ४, १ :  
२०<sup>क</sup>; ऋवौष्ट<sup>१</sup> २, ८, ३८; ३९;  
भाष्ट ३, १४ : १७<sup>क</sup>; -ष्टेः  
या ११, ४९<sup>क</sup>; -ऋष्टौ<sup>१</sup> कौष्ट  
४, ४, १५; शांष्ट १८, १०;  
-ष्टया आपश्रौ ५, १०, ९<sup>क</sup>;  
हिश्रौ; -ष्टयै शांश्रौ ७, ५, १४<sup>क</sup>;  
काश्रौ.

पौष्टिक<sup>१</sup>- -कम् अप २६, २,  
२; आज्यो ५, ४; -के अप २१,  
३, ३; २५, १, १०××.

पौष्टिक-होम- -मः अप  
१८<sup>२</sup>, ८, १.

शुष्टि-कर्मन्- -मणि कप्र १,

५, ६.  
शुष्टि-कर्मन्- -मं वौघ २, ८,  
१; -मणाम् कौसू २४, ४५<sup>१</sup>;  
-मंसु कौसू ७, २; -मं गोष्ट  
३, १०, १.

शुष्टि-काङ्क्षा- -क्षया आमिष्ट  
३, १२, १ : १८.

शुष्टि-काम, मा- -मः आश्रौ १०,  
२, २३; काश्रौ ४, १४, २२;  
आपश्रौ; -मम् आपश्रौ १७,  
१९, ७; वौष्ट २, ५, ५; -मस्य  
काश्रौ २३, २, १२; आपश्रौ ५,  
१४, १; वौश्रौ; -मा वैष्ट ३, ७ :  
२६; -माय अशां १९, ४<sup>क</sup>.

शुष्टि-कारक- -कम् या १४, ३२.

शुष्टि-गु<sup>१</sup>- -गुः ऋअ २, ८, ५०;  
अअ २०, ५१.

शुष्टि-दावन्- -वा कौसू ७२,  
१८<sup>क</sup>.

शुष्टि-पति- -ऋतये शांश्रौ २, १०,  
१; काश्रौ ४, १४, २२; आपश्रौ  
६, १३, २; १४, २१, ७<sup>म</sup>; वाश्रौ;  
-ऋतिः आश्रौ ३, ८, १; शांश्रौ;  
काश्रौ ५, १३, १<sup>म</sup>; आपश्रौ १४,  
२८, ४<sup>०</sup>; वैश्रौ २१, १५ : १५<sup>०</sup>;  
हिश्रौ<sup>०</sup> ३, ७, १०५; १५, ७, १२;  
आमिष्ट १, ४, १ : २०<sup>०</sup>; वौष्ट<sup>०</sup> २,  
८, ३८; ३९; भाष्ट ३, १४ : १८<sup>०</sup>;  
-तिम् काष्ट २२, २; ३; -०त्ते  
आश्रौ ६, ९, १<sup>म</sup>; -तौ हिश्रौ  
१५, ५, २७.

शुष्टि-प्रवाद- -दम् निसू ६, ७ :  
३९.

शुष्टि-मत्- -मत् काष्ट ५, १३,  
३<sup>क</sup>; -मते वाधुश्रौ ४, १०८ :  
९<sup>क</sup>; -मन्तम् माश्रौ १, २, ६, ४<sup>क</sup>;  
-मन्तौ आश्रौ २, १, २७; १८,  
५××; काश्रौ; -ऋमान् आपश्रौ  
४, १३, २<sup>क</sup>; वौश्रौ २७, १४ :  
९<sup>क</sup>; भाश्रौ ४, १५, ६; १९, ४<sup>क</sup>;  
८, ३, १<sup>क</sup>; माश्रौ १, ४, १, २७;  
२, ६<sup>क</sup>; वाश्रौ १, १, ३, १; ६<sup>क</sup>;  
हिश्रौ ६, ३, २; ४, १<sup>क</sup>; ४२<sup>क</sup>;  
भाष्ट.

ऋपुष्टिमती- -ती आपश्रौ ३,  
१०, ९; ४, १३, ३<sup>क</sup>; भाश्रौ  
३, १२, ८; वैश्रौ ७, ११ : ४;  
-ऋयै आपश्रौ २०, ४, ३; वौश्रौ  
१५, ५ : २२; हिश्रौ १४, १,  
३८.

ऋपुष्टि-वर्द्ध<sup>१</sup> [र्ध]न<sup>१</sup>- -०न कौसू  
७०, १; -नः आश्रौ २, ५, १२;  
शांश्रौ; -नम् वौश्रौ ५, १६ :  
२०<sup>०</sup>; दाश्रौ १३, ३, ३<sup>०</sup>; लाश्रौ  
५, ३, ७<sup>०</sup>; वैताश्रौ ९, १९<sup>०</sup>; अप  
१८, १, ५<sup>०</sup>; या १४, ३२<sup>०</sup>.

शुष्टी(ष्टि-इ)च्छु- -च्छुः काश्रौ  
१८, ५, १२.

शुष्ट्य(ष्टि-अ)र्थ- -र्थेन आपध २,  
२०, ३.

शुष्ट्य<sup>१</sup>- पा ३, १, ११६; -०ष्य  
अशां २, १; -ष्यः अप १, १,

- a) वैप १ निर्दिष्टानां समावेशः द्र. । b) पाभे. वैप १ रुन्तिः शौ ३, १०, ६ टि. द्र. । c) तु. राज. ।  
d) एकतरत्र पाभे. वैप २, ३ खं. पुष्टिः तैत्रा २, ५, ७, ४ टि. द्र. । e) पाभे. वैप १ वृष्टिम् काठ ५, २ टि. द्र. ।  
f) पाभे. वैप १, २०५६ m द्र. । g) पाभे. वैप १, २०५७ e द्र. । h) विप. । ठञ् प्र. (पा ५, १, १०९) ।  
i) विप. । वस. । j) =मन्त्र- । k) वैप १ द्र. । l) उप. <√दा(दाने) । m) पाभे. वैप १, २०५७ m द्र. ।  
n) पाभे. वैप २, ३ खं. पुष्टिपतिः माश्र ११, ४, ३, १६ टि. द्र. । o) पाभे. वैप १, २०५७ i द्र. ।  
p) पाभे. पृ १५५३ a द्र. । q) पाभे. वैप १, १९७९ a द्र. । r) लाश्रौ. या. पाठः । s) पाभे. वैप १,  
१८९६ j द्र. । t) =नक्षत्र-विशेष- ।

२०; २, १; ३, १××; काश्रु ७, ३५;  
-घ्यम् अशां २, १; -प्यस्य  
अशां ६, २; -प्यान् अप १, ४३,  
६; -प्याय शांश्रु १, २६, ६१;  
अशां १२, १; -प्ये अप १, ४, २;  
२७, २××; विध ७८, १३; -प्येण  
शांश्रु १, २०, २; पाश्रु.

१पौष- पावा ६, ४, १४९.

पौषी<sup>b</sup>- पी कौसू  
१४१, ४२; विध ९०, ३; -पीम्  
द्राश्रु ३, २, २४; -प्याम् वैताश्रौ  
२८, ३; कौसू १४१, ५; अप  
१८<sup>१</sup>, ११, १; विध ९०, १९.

२पौष<sup>c</sup>- पस्य पाश्रु  
२, १२, १; कौसू १३९, २४<sup>१</sup>;  
-पे अप ५५, ३, १; वैध २, १२,  
७.

पौष-कृष्ण-समा-  
पिन्- -पिनः वेज्यो ५.

पौष-भाद्रपद-  
ज्येष्ठ- -ष्ठाः वौध ४, ५, २४.  
पुप्य-यु(क्त>)क्ता- -क्ता विध  
९०, ३.

पुप्य-स्ताना( न<sup>१</sup>-आ )दिक-  
-कम् शंघ १००.

पुप्या(व्य-अ)भिपेक- -कः अप  
१८<sup>१</sup>, ११, १; ३३, ७, ६; -कस्य  
अप ५, १, १.

पुप्या(व्य-अ)भिपेचन- -ने अप  
५, ५, ७.

पुप्यन्- -प्यन् वृदे २, ६३.

पुप्यन्ती- -न्त्याः वौश्रौ ६, १५;  
५१.

पुप्यमाण- -णः माश्रु २, ११, १७<sup>१</sup>.

पुप्यसे<sup>१</sup> वौश्रौ ६, ४ : ७; १०,  
१३ : ६.

पुप्योष<sup>१</sup>- -०ष जैश्रु १, १२ : ९;

-षः शांश्रौ २, ११, ६; ४, १२,

९<sup>१</sup>; आपश्रौ; वौश्रौ<sup>१</sup> ३, २१ :

१३; ११, ११ : १७; हिश्रौ

१३, २, ९<sup>१</sup>; -पम् आश्रौ १,

९, ५; १०, ८××; शांश्रौ; आपश्रौ

२०, २०, ९<sup>१</sup>; पाश्रु २, ६, २०<sup>१</sup>;

या १, ८; -षस्य आश्रौ १, ७,

८; वौश्रौ १४, ८ : १५; आश्रु

२, ८, १६<sup>१</sup>; कौश्रु ३, २, ६<sup>१</sup>;

शांश्रु ३, ३, १; माश्रु २, ११,

१२; -पाः भाश्रौ २, २, ६;

माश्रौ १, ८, ३, ३; वाश्रौ; -पान्

हिश्रौ १७, ७, ९; तैप्रा ९, २, १;

-पाय शांश्रौ ४, ८, १; १६, ४, ४;

आपश्रौ; माश्रौ १, ५, ३, ६<sup>१</sup>;

आश्रु १, ७, १९<sup>१</sup>; कौश्रु १, ८,

२८<sup>१</sup>; शांश्रु १, १४, ६<sup>१</sup>; पाश्रु

१, ८<sup>१</sup>, १; आमिश्रु १, १, २ :

४८<sup>०</sup>; ५, ४ : ४४; काश्रु २५,

२७; ४२<sup>१</sup>; ४२<sup>०</sup>; वौश्रु १, १,

२८; भाश्रु १, १७ : ४; वैश्रु ३,

४ : ९; हिश्रु १, ४, ८<sup>०</sup>; २१,

१; जैश्रु १, १२ : १०<sup>०</sup>, या

६, २१; -षे शांश्रौ १, १२, ५;

वौश्रौ; आमिश्रु १, १, २ : ४९<sup>१</sup>;

काश्रु ४१, ७<sup>१</sup>; हिश्रु १, ४, ८<sup>१</sup>;

जैश्रु १, १२ : १०<sup>१</sup>; अप ६, १,

८<sup>१</sup>; अपं ३ : २६<sup>१</sup>; -षेण शांश्रौ

२, ११, ५; १२, १०; ४, १२, ९<sup>१</sup>;

आपश्रौ १, १२, ११××; ५, २, ४<sup>१</sup>;

११, ५<sup>१</sup>; १८, २<sup>१</sup>; वौश्रौ २, १६ :

३८××; ३, २१; १३<sup>१</sup>; ११, ११ :

१७<sup>१</sup>; भाश्रौ; माश्रौ २, १, १, ६<sup>१</sup>;

वाश्रौ<sup>१</sup>; १, ४, २, १४<sup>१</sup>; हिश्रौ

६, ५, ११; १३, २, ९<sup>१</sup>; शांश्रु

३, ११, १४<sup>१</sup>; पाश्रु ३, ९, ६<sup>१</sup>;

-षेषु या १३, ४; -पैः आश्रौ

२, ३, २७; शांश्रौ.

पोष-पुत्र- -त्रयोः शुप्रा ३, २५.

पो(व्य>)प्या<sup>१</sup>- -प्या आश्रौ ६,

१४, १८; आपमं १, ८, ९; कौश्रु

१, १०, १३<sup>१</sup>; शांश्रु १, १७, ३<sup>१</sup>;

-०प्ये पाश्रु १, ८, १९<sup>१</sup>.

१पोषण- -णम् सुध ८; आज्यो

५, ८; -णात् वौश्रौ २५, १३ :

२५.

पोषणा(ण-आ)दि-परिचर्या—

जीविन्- -त्री वैध ३, १३, १०.

२पोषण<sup>१</sup>- > णी- -णी शंघ ४२.

पोषयित्- -त् या १०, १५.

पोषयित्नु- पाठ ३, २९; -नित्नु

आश्रौ १, १०, ५; ३, ८, १;

शांश्रौ १३, ४, २; आपमं २, १८,

a) उत्तरेण संघिरार्थः । b) = पौर्णमासी- । c) = मास- । अण प्र. (पा ४, २, २०) । d) ०प्यस्य इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. पाश्रु) । e) = स्नान-विशेष- (तु. उत्तरे प्राति) । सप्त. > घस. । f) सपा. काश्रौ २५, ५, २८ आश्रु २, ९, ५ मोदमानः इति पामे. । g) वैष १ द्र. । h) भाप., नाप. । i) पामे. वैष १, १९७३ a द्र. । j) पामे. वैष १, २०५९ e द्र. । k) सप्र. वाश्रु १२, ३ हिश्रु १, ४, ३ विभे. । l) पोषस्व इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. शांश्रु. माश्रु. गसं. Old. च) । m) पामे. वैष २, ३खं. पोषेण तैप्रा १, २, १, १९ टि. द्र. । n) पामे. वैष २, ३खं. वृताय टि. द्र. । o) पामे. वैष १, ११८६ f द्र. । p) पामे. वैष १, ११८६ h द्र. । q) पामे. वैष १, २०६० b द्र. । r) पामे. वैष १, १९७४ b द्र. । s) पामे. वैष १, २०६० a द्र. । t) परस्परं पामे. । u) कर्तारि कृत् ।



४७; या १०, १५, ६.  
 पोषयित्वा वैध १, ७, ५.  
 पोषित-न्तम् आमिष्ट १, ७, ४:४.  
 √पुप् √व्युप् टि. द्र.  
 १पुष्क<sup>a</sup> - (> १पुष्कल- , पुष्कन्त-  
 पा.) पाठमो २, २, ५; पाग ५,  
 २, १७.  
 २पुष्क<sup>b</sup> -> पौष्कि<sup>b</sup> - (> पौष्कायण-  
 पा.) पाग २, ४, ६१.  
 ३पुष्कर<sup>c</sup> - पाठ ४, ४; पा. पाग ४, २,  
 ८२; पाग ४, १, ४१; २, १५;  
 ५, २, १२५; -रम् अप २३, ३,  
 १; शंघ ११६: १२३; १३;  
 वृदे ५, १५५; अथ १२, ११;  
 निघ १, ३१<sup>०</sup>; या ५, १४<sup>०</sup> ६<sup>०</sup> १;  
 १४, ११<sup>०</sup>; -परस्य आपथौ ५,  
 २, ४; वाथौ १, ४, २, २;  
 -राणि अप ४२, २, ४; -रात्  
 आथौ २, १६, २; -शांथौ; -रे  
 शंघ १२४<sup>१</sup>; विघ : ८५, ३<sup>१</sup>; वृदे  
 ५, १५४, या ५, १४<sup>१</sup>; -रेषु  
 द्विघ ८५, १.  
 पुष्करी- पा ४, १, ४१.  
 पौष्करेयक- पा ४, २, ९५.  
 पुष्करन्तु-> ंतु-गोवाल-नुटि-  
 सप्य-यव-वस्य अप २१,  
 २, ४.  
 पुष्कर-द्वीप-पम् शंघ ११६: ५.  
 पुष्कर-नाल-लस्य काशु ७, २३.  
 पुष्कर-पर्ण-र्णः हिथौ ३, ३, ३७;  
 -र्णम् काथौ १६, २, २५; १७,  
 ४, १; आपथौ; -र्णात् हिथौ ३,

३, ३८; -र्णानि-आमिष्ट २, ५,  
 १०:४; ११:३; -र्णे काथौ  
 १६, २, २९; आपथौ १६, ३, ४;  
 २२, ३; माथौ; -र्णेन वौथौ २२,  
 १:१४; -र्णेषु आमिष्ट २, ५,  
 १०:१९; ११:१७.  
 पुष्करपर्णा(र्ण-आ)दि-दयः  
 वौथौ १९, १०: ५६; -दिभिः  
 वौथौ १९, १०: ५४.  
 पुष्कर-पलाश-दाम् माथौ १, ५,  
 ३, १८; -शो जैथौप १; द्राथौ  
 २, १, ११; लाथौ १, ५, ८; -शेषु  
 हिथौ २२, ६, ६; -शैः आपथौ  
 १९, २६, १.  
 पुष्कर-संवर्त-मूल-लैः आपष्ट  
 ९, १०.  
 पुष्कर-सद-पा, पाग २, ४, ६३<sup>१</sup>;  
 पाग ४, १, ९६; ७, २, २०.  
 पौष्करसादि-पा ४, १,  
 ९६; ७, २, २०; पाग २, ४, ६१;  
 -दिः वौथौप्र ४८: १०; -देः  
 तैप्रा ५, २७; १३, १६<sup>२</sup> x x; पावा  
 ८, ४, ४८.  
 पौष्करसादायन-पा २,  
 ४, ६१.  
 पुष्करसद-ग्रहण-णात् पावा  
 ७, २, ११७.  
 पुष्करसादि-दिः आमिष्ट १,  
 १, ३: ५०; हिष्ट १, ६, ८<sup>१</sup>;  
 आपथ १, १९, ७.  
 १पुष्कर-सज-सजम् आथौ २,  
 ७, १३; शांथौ; -सजा आपमं

१, १२, २; २, १२, २; वीष्ट;  
 -सजौ आष्ट १, १५, २; पाष्ट २,  
 ४, ८<sup>१</sup>; आमिष्ट.  
 पुष्करि(र >)णी<sup>c</sup>- पा ५, २,  
 १२५; -णी कौसू-१०६, ७<sup>१</sup>;  
 या ७, ३; -ण्यः वौथौ १८,  
 ४५: २४; -ण्याम् अप १८<sup>२</sup>,  
 १५, १; ३९, १, २.  
 पुष्करिणी-कूप-तडाग-गानाम्  
 शांघ ५, २, १.  
 पुष्करिणी-गत-तान्-अप ६८,  
 २, २७.  
 पुष्करिणी-पर्ण-र्णे अप ६८, २,  
 ७.  
 पुष्करद<sup>h</sup>-  
 १पुष्कल-१पुष्क-द्रः  
 २पुष्कल<sup>i</sup>-पाठ ४, ५; पाग: ४, १,  
 ४१; २, ७५; १५; -लम् काथौ  
 २५, ५, १८; आपथौ ९, १३, ४;  
 १६, ९; वौथौ; वैध १, ७, ६<sup>१</sup>;  
 -लेन याशि २, ११३; -लेभिः  
 भाशि ११७<sup>१</sup>; -लेषु<sup>१</sup> आपथौ  
 १९, २५, १६; हिथौ २२, ५, २६.  
 पुष्कली<sup>o</sup>-पा ४, १, ४१.  
 पौष्कल-पा ४, २, ७५; -लम्<sup>p</sup>  
 लाथौ ६, ११, ४; १०, १, १६;  
 निम्; -लस्य लाथौ ७, १, ७<sup>१</sup>;  
 -लेन जैथौक २७<sup>१</sup>.  
 पौष्कल-शुष्कौ(ध-थौ)णिह-  
 हा: निम् ९, १२: १७.  
 पौष्कलेयक-पा ४, २, ९५.  
 पुष्ट-; पुष्टि-प्रष्ट. √पुप् द्र.

a) शुष्क- इति पाका. b) तु. पाका. c) पौष्पि- इति भाण्डां. प्रष्ट. d) वैप-र. d) = तीर्थ-विशेष-। e) अन्तरिक्ष-नामन्-। f) = उदक-। g) = आचार्य-विशेष-। h) पुष्करद- इत्यपि पासि. i) = पौष्करसादि-। पूष. वृद्धयभावः। j) पौ<sup>o</sup> इति भाण्ड्यम्, Böht [ZDMG ४३, ५९९] व। k) पामे. वैप १, २०६१ e द्र. l) वप्रा. विप., नाप. (सुवर्णपरिमाणविशेष- [काथौ २५, ५, १८])। व्यप. (कपि-। m) तु. C.; वैतु. रक्षा. ल-मुक्तम् इति। n) विप. [(पुष्य-), नक्षत्र- (भाद्रपदा- [तु. C. टि.])। o) = वनस्पति- इति पागम. p) = साम-विशेष-। वैप-नु-२०

√पुष्प<sup>१</sup> पाधा. दिवा. पर. विकसने.  
 १पुष्प<sup>२</sup> - पा ४, १, ६४; पा, पाग ५,  
 ३, १००; पाग ३, १, २७०; ५, २,  
 २४<sup>२</sup>; ३६; -प्यम् आपश्रौ १४,  
 ३२, १<sup>३</sup>; वैश्रौ २०, २८ : ५<sup>४</sup>;  
 जैश्रौ; या ५, १४<sup>५</sup>; आज्यो  
 १२, १<sup>६</sup>; ३<sup>६</sup>; -प्पाणाम् अप  
 ७०, ५, ५; -प्पाणि आम्रिगृ २,  
 ५, १ : १२; वैगृ ४, १२ : १०;  
 गौपि; -प्यात् पात्रा ४, १, ६४;  
 -प्यान् आज्यो १२, ४; -प्ये  
 अप ६४, ८, ७; ७०<sup>३</sup>, ७, १४××;  
 आपध; -प्येभ्यः वौध २, ६, ४;  
 -प्येयु अप ७०<sup>३</sup>, २३, १३; विघ  
 ९२, १६; -प्यैः आम्रिगृ २, ४,  
 ६ : ५, ९; वैगृ.  
 १पुष्प-क<sup>६</sup> - (> यक्र. २पुष्पक<sup>६</sup> -  
 पौष्पक-पा.) पाग ५, ३, १००<sup>३</sup>;  
 ४, ३८.  
 पुष्प-काल-लम् वाध २८, ३.  
 पुष्प-कुण-पुष्प-जाहं- पा ५, २,  
 २४.  
 पुष्प-तिल-चूर्ण-लाज-धूप-दीपा (प-  
 अ)क्षत-तैः वैगृ ५, ७ : ७; ८.  
 पुष्पतिला(ल-अ)क्षत-तैः वैगृ ५,  
 ६ : १५.  
 पुष्प-तिला(ल-अ)क्षत-दर्भ-भान्  
 वैगृ ४, ४ : १३.  
 पुष्प-दान-नम् कप्र १, ४, ६.  
 पुष्प-धूपा(प-अ)नुलेपन-दीप-नैवेद्य-  
 -द्यैः विघ ४२, २.  
 पुष्प-पूर्ण-र्णम् अप २०, ३, ४.  
 पुष्प-प्रचायिका<sup>६</sup>- पाठ २, ३२.  
 पुष्प-प्रदान-नेन विघ ९१, १३.

पुष्प-फल-लम् या १, २०;  
 -लानाम् सुषप ८७ : १३; -ले  
 अप ७०<sup>३</sup>, ६, ४; या १, २०.  
 पुष्पफलो(ल-उ)पग-गाः वौध  
 १, ५, ५१; -गान् वाध १९,  
 ११.  
 पुष्प-फल-भक्ष-आम् गौपि १, ६,  
 ६.  
 पुष्प-फल-मूल-लानि वाध २,  
 २६.  
 पुष्प-फल-यव-वान् कौगृ १, २, २;  
 शां १, ६, २.  
 पुष्प-फला(ल-अ)क्षत-मिश्र-श्रैः  
 वौगृ १, १, २४.  
 पुष्प-म(य>)यी-यीम् गौपि १,  
 ६, ५.  
 पुष्प-मूल-लेषु पावा ४, ३, १६४.  
 पुष्पमूल-प्रचयन-नम् शंघ  
 २५५.  
 पुष्प-मूल-फल-लानि वाध २,  
 ४६.  
 पुष्प-वत्-वन्तः अप ७१, १५, १;  
 आज्यो २, १०; -वन्तम् वौगृ  
 १, ६, २२.  
 पुष्पवती-ती आज्यो १८, ४;  
 -तीषु आपश्रौ १६, ४, १४;  
 वैश्रौ १८, १ : ५५; हिश्रौ ११,  
 १, ४१.  
 पुष्प-वाटी-टीम् वृदे ६, ५६.  
 पुष्प-विधि-धिः आज्यो १२, २.  
 पुष्प-साधारण-णे माशि १, १०;  
 नाशि १, ५, ४.  
 पुष्प-हरित-गुल्ल-बल्ली-रुता-पर्ण-  
 -र्णानाम् विघ ५, ८५.

पुष्पा(प-अ)क्षत-फल-यव-हिरण्य-  
 मि(श्र>)श्रा-श्राम् कौगृ १,  
 २, ३<sup>१</sup>; शां १, ६, ५.  
 पुष्पा(ष-अ)ज्या(ज्य-आ)दि-  
 हस्त-स्तः शंघ ४०.  
 पुष्पा(ष-अ)जलि-लिम् शंघ  
 ११६ : ६९.  
 पुष्पा(ष-अ)दि-दि वैगृ २, २०;  
 ४; ५, ६ : १७; -दिना वैगृ ३,  
 २२ : ७; -दिमिः वैगृ २, १ :  
 ११; ५, ६ : २३.  
 पुष्पाच(दि-अ)लङ्कार-रन् अप  
 १८, १, २.  
 पुष्पा(ष-२आ)द्य-द्यैः वैगृ १, ६ :  
 ३; २, १ : ७××; वैध ३, १०, ५.  
 पुष्पा(ष-अ)पहारिन्-री शंघ  
 ३७८.  
 पुष्पा(ष-अ)पूष-दक्षिणा(णा-आ)  
 दि-समार-रान् वैगृ ३,  
 २२ : ५.  
 पुष्प(ष>)प्या-व(त्>)ती-तीः  
 विघ ६५, ९<sup>११</sup>; तैप्रा ३, ५<sup>६</sup>.  
 पुष्पा(ष-आ)शिन्-शी विघ ९५,  
 ७.  
 पुष्पि(न्>)गी-गीः वौश्रौ १०,  
 २४ : १८; वैश्रौ १८, १५ : ५<sup>४</sup>;  
 -णीम् याशि २, ५०; -प्यौ  
 शांश्रौ १५, १९, १<sup>४</sup>.  
 पुष्पित,ता-पा ५, २; ३६; -ताः  
 अप ६८, २, २२; -तानाम् विघ  
 ५०, ४८; -ते अप ७२, १६, १.  
 पुष्पो(ष-उ)पगम-द्रुम-च्छे-  
 दिन्-त्री विघ ५, ५६.  
 √पुष्प्य पा ३, १, २७.

a) या ५, १४ परामृष्टः द्र. । b) वप्रा. । अर्धर्चादित्वां द्र. । c) वृ. पागम. ।  
 d) = स्त्री-रजस्- । e) <पुष्पक- । f) = विमान- इति पागम. । g) = क्रीडा-विशेष- (वृ. पा ६, २, ७४) ।  
 h) श्राम् इति पाठः? यनि. शोधः [वृ. शां.] । i) पामे. वैप १, २०-६२ C द्र. । j) प्य<sup>०</sup> इति जीसं. ।  
 k) पामे. वैप १, २०-६२ d द्र. ।

२पुष्प<sup>a</sup> -> पौष्पि<sup>b</sup> - ष्ययः वौश्रौप्र  
२६: ३.

पौष्पायण- पा २, ४, ६१.

१-२पुष्पक- प्रमृ. १पुष्प- द्र.

पुष्पि<sup>a</sup> - ष्ययः वौश्रौप्र २७: ९.

पुष्पिणी- प्रमृ. १पुष्प- द्र.

पुष्प्य- प्रमृ. √पुष्प द्र.

√पुस्त पाधा. चुरा. पर. संघाते<sup>c</sup>.

√पुस्त पाधा. चुरा. पर. आदरा-  
नादरयोः

पुस्त- पाठओ २, ३, १३४; पाग  
२, ४, ३१.

पुस्तक<sup>d</sup> - पाग २, ४, ३१; -कम्  
विध १८, ४४; २३, ५६.

पुस्तक-प्रत्यया(य-अ)घीत- तम्  
नाशि २, ८, १९.

पुस्तक-वाद्य<sup>e</sup> - चम् नाशि २, ८,  
२९.

√पू (वधा.)<sup>f</sup> पाधा. भ्वा. आत्म.,

क्र्या. उभ. पवने, ऋषवते काश्रौ

९, ६, १५; ३४; आपश्रौ; अत्र

१८, २<sup>h</sup>; या ७, २; १४, १२;

पवन्ते आपश्रौ १७, १८, १<sup>h</sup>क<sup>i</sup>;

ऋषवसे आश्रौ २, १, २०; ३,

२९; ८, १२; काश्रौ; ऋषवताम्

वौश्रौ ९, ४: ३०; १२: ८xx;

वैश्रौ; ऋषवस्व, > स्वा आश्रौ

२, १, २०; शाश्रौ २, २, ५;

काश्रौ; ऋषवेथाम् आपश्रौ

१२, १८, २०; माश्रौ २, ३,

७, १<sup>h</sup>; वैश्रौ १५, २२: ९;

ऋषवध्वम् आपश्रौ १२, १८,

२०; वैश्रौ १५, २२: ९; ऋषव-

वयाः आपश्रौ १२, १५, ८;

जैश्रौ ९: १९; २०.

पुनीते वाधुश्रौ २, १४: ४;

वौध; पुनाति आश्रौ २, १२,

६क<sup>i</sup>; काश्रौ १४, १, २७; १५,

१०, ९; १९, २, ९क<sup>i</sup>; आपश्रौ;

ऋषुनते आपश्रौ ४, १३, ४;

वौश्रौ २८, १: ७; २: ६;

भाश्रौ; पुनन्ति वाध ६, ३;

२६, ४; २८, १५; शंघ;

ऋषुनीषे आश्रौ ७, ९, २;

शाश्रौ १२, १०, ६; ऋश्र २, ७,

८५; ऋषुने वौश्रौ ६, २: २२;

भाश्रौ १०, ५, ५; ऋषुनामि वाश्रौ

३, ३, २, २८; कौश्र ५, ३, ३०;

आश्रिग्य; ऋषुनीमेहे आपश्रौ १०,

७, १३; वौश्रौ २८, १: २०xx;

वैश्र; ऋषुनातु काश्रौ २१, ४, १;

आपश्रौ १, ११, ७; १९, १, १८<sup>i</sup>;

वौश्रौ; वैश्रौ २०, ३३: ६<sup>h</sup>; या

५, ६; ऋषुनन्तु काश्रौ १९, ३, २३;

आपश्रौ; या ५, ६; ऋषुनीहि शाश्रौ

१५, १५, ६<sup>i</sup>; द्राश्रौ १३, ४, ७<sup>m</sup>;

लाश्रौ; वैताश्रौ ३०, ९<sup>m</sup>; कौश्र

२, १; पुनय वौध ३, ६, ५<sup>o</sup>; ६<sup>p</sup>;

७<sup>q</sup>; ८; ९<sup>q</sup>; १०<sup>b</sup>; पुनीध्वम्<sup>q</sup> विध

४८, २०-२२; ऋषुनीत आपश्रौ

४, ५, ६; भाश्रौ; विध ४८, १८<sup>o</sup>;

पुना(त>)ता<sup>r</sup> ऋश्र ७, ३३;

ऋषुपुनात वाधुश्रौ ४, ८३: ३<sup>h</sup>;

कौश्र ५, ३, ३०<sup>h</sup>; आश्रिग्य ३,

६, १: २८; वौषि १, ९: ४<sup>h</sup>;

पुनीयात वाधुश्रौ २, १४: ३.

पुपुतु: शाश्रौ १४, ६२, २.

पूयते अत्र २, ६, ३; वाध ३, ६१;

२३, २२; या १४, १५<sup>h</sup>;

पूयन्ते वाध २८, १७; शंघ.

पवयते वैश्रौ १५, २०: ५; पव-

यति आपश्रौ ६, ३, १४; १०, ७,

५xx; वौश्रौ; ऋषवयन्ते वौश्रौ

८, १४: १०; पवयन्ति वौश्रौ १६,

१: १७; २६, ३३: २०; वाधुश्रौ

३, १६: ४; पवयति भाश्रौ १०,

५, १; पवयतु वौश्रौ १६, १:

१७; पवयेत वौश्रौ २१, ८: १७;

२१; जैश्रौका ९५; १८४.

पवयिष्यामेहे वौश्रौ १८, २६:

१२.

पवयति काश्रौ ७, ३, १; आपश्रौ;

पवयतः काश्रौ १९, २, २८;

पवयन्ति आश्रिग्य २, ६, २: २९क<sup>i</sup>;

पवयेत काश्रौ १२, २, १९;

आपश्रौ १०, ७, ९; वौश्रौ.

पवयां √क; पवयांक्रियात् पा

३, १, ४२.

पवन<sup>h</sup> - पाग ३, १, १३४<sup>m</sup>; -न:

विध ८, २९; आज्यो ७, १८;

-नम् आश्रिग्य ३, ४, ४: २७:

-नस्य वौश्रौ १६, १: ११; -ने

वौश्रौ १, ४: २०क<sup>i</sup>; २१, ८;

a) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ?। b) पृ १६०९ b द्र. c) तु. BPG.। d) नाप.। व्यु. ? <पुस्त- इति

शक.। e) पूष. ?। f) वैष १ द्र.। g) या ५, ६ पा १, २, २२; ७, २, ७४; ३, ८०; ८, ४, ३२ परामृष्टः द्र.। h) पामे.

वैष १, १८८६ r द्र.। i) पामे. वैष १, २०६३ b द्र.। j) पामे. वैष १, २०६४ g द्र.। k) ण<sup>o</sup> इति

पाठः ? यनि. शोधः (तु. तैत्रा १, ४, ८, ६)। l) पामे. वैष १, २०६५ f द्र.। m) पामे. वैष १, २०६४ n द्र.।

n) पामे. वैष १, २०६५ d द्र.। o) सप्र. पुनय <> पुनीत इति. पामे.। p) सप्र. विध ४८, १९ नाशयध्वम्

इति पामे.। q) परस्परं पामे.। r) पुनत इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. तैत्रा ६, ३, २ आश्रिग्य)। s) पामे.

वैष १, १००३ d द्र.। t) = वायु-। u) तु. पाका.। यवन- इति भाण्डा. प्रमृ.।

१६५५; बांध; -नेन। वौश्री  
 १२, ९; १७; आण्.  
 पवन-क्षोभ-संजात-वीची-  
 शत-समाकुल-लम् विध १,  
 ३४.  
 ?पवन-जल-मरण-रक्ष-  
 क्षय-याय अप ७०<sup>३</sup>; २३, १४.  
 पवमान<sup>०</sup> - > भान्-वत्- -वान्  
 भाश्री ५, २०, ७.  
 पवमान, ना<sup>०</sup> - पा ३, २, १२८; -०न  
 ऋप्रा ६, १२; ८, ४७<sup>०</sup>; -नः  
 आश्री २, १, १९; १२, ५; शाश्री ६,  
 १२; ७<sup>०</sup>; १०, १३, ५××;  
 आपश्री ११, १४, १०<sup>०</sup>; १०  
 या १४, १७<sup>०</sup>; -नम् शाश्री २,  
 ३, १०; आपश्री १३, २, ७;  
 वौश्री; -नयोः आश्री ८, ६,  
 ८; हिश्री १, १, २१; जैश्री;  
 -नस्य शाश्री ६, ८, १४<sup>०</sup>; १०  
 वौश्री; -फना आपश्री ५, १३, ७;  
 १६, ४; २६, ५; भाश्री; -नाः  
 आश्री ६, १०, २२; शाश्री;  
 -नात् आपश्री १३, ३, १; ११, १;  
 वौश्री; -नान् शाश्री ६, ८, ९;  
 वौश्री; -नानाम् शाश्री ८, १५,  
 ७; वौश्री १४, ६; १××;  
 -नाभ्याम् माश्री २, ४, २, ३९;  
 क्षुसू १, ११ : २५<sup>०</sup>; -नाय  
 आश्री ५, २, ४; शाश्री; -ने  
 आश्री ५, १२, २६; १५, १६; १७,  
 ४; शाश्री; -नेन शाश्री ७, १६,  
 १; ८, १, ९; आपश्री; -नेभ्यः  
 आपश्री १२, १७, ९; १४, २५,  
 ९; १७, २३, ३; वौश्री १४, ६ :

२; ९<sup>०</sup>; -नेषु आश्री १, १२,  
 २२; शाश्री ११, ११, ४; काश्री;  
 -नौ शाश्री १४, २५, २; २६, २;  
 ३३, २; आपश्री.  
 पावमान<sup>०</sup> - नः भाशि  
 १२१; -नम् ऋश्र २, ९, १; वृदे;  
 -नस्य माश्री ५, २, २, ६<sup>०</sup>; १०  
 लाश्री ६, ११, २; -नाः शांश्र ४,  
 १०, ३<sup>०</sup>; -नानि क्षुसू २, ९ :  
 २<sup>०</sup>; -फनाय लाश्री ७, १०,  
 २१; १२, ३; -ने गोश्र २, ३, ४४;  
 जैश्र १, १४ : १२; -नेन आपश्री  
 १९, २४, ६<sup>०</sup>; वौश्री.  
 पावमानी<sup>०</sup> - नी वौश्री  
 २७<sup>०</sup>; ६ : २३; २६; वौध ४, ६,  
 २; ऋश्र; -नीः आश्री ५, १२,  
 ११; आपश्री १७, ९, ८; वैश्री; माश्र  
 २, १४, २६<sup>०</sup>; -नीनाम् शाश्री  
 ७, १५, १५; लाश्री ८, ५, १५;  
 -नीभिः वौश्री २३, १६ : १६<sup>०</sup>;  
 १९८; आश्रिण्; -नीम् निसू ७,  
 ५ : ११; शुश्र ३, १०<sup>०</sup>; -नीषु  
 निसू ८, ८ : २; यां ११, २;  
 -न्यः फौश्री २८, १ : ७; २ :  
 ७; आश्र ३, ४, २<sup>०</sup>; कौश्र २, ५,  
 १<sup>०</sup>; आश्रिण् २, ४, ५ : ८<sup>०</sup>; १०  
 श्रप; -न्याम् या १२, ३१.  
 पावमान्य(नी-अ)ध्ये-  
 तृ-स्तुति<sup>०</sup> - न्ती ऋश्र २, ९, ६७.  
 पावमान्या(नी-आ)  
 दि-दिभिः आपध १, २, ६.  
 पवमान-गत- न्तयोः निसू २,  
 ९ : २२.  
 पवमान-ग्रह- हाः आपश्री १२,

१६, १२; -हाणाम् वौश्री २१;  
 १८ : १; -हान् वौश्री १६, २ :  
 ११; १२ : १५; हिश्री; -हेभ्यः  
 वैश्री १६, १२ : १०; हिश्री ९,  
 ३, ३३; -हौ वैश्री १६, १२; १५.  
 पवमान-जप- -पः जैश्रीका  
 ११२; १६१; -पम् जैश्री ११;  
 २.  
 पवमान-भाव- -वे आश्री ८, ४;  
 २६.  
 पवमान-सुख<sup>०</sup> - स्वयोः निसू ७,  
 ५ : ३०.  
 पवमान-वत् वृदे ६, १३०; मीसू  
 १०, ४, २८; १२, ३, ७.  
 पवमान-सर्पणा (ण-अ)न्त-  
 न्तम् वैताश्री २२, १५.  
 पवमान-सामन्- -मनी निसू २,  
 ९ : २७<sup>०</sup>.  
 पवमान-स्तोत्र- -त्राणि वैश्री १५,  
 १९ : ६.  
 पवमान-स्थान- -नेषु निसू ४,  
 ११ : ८.  
 पवमान-हविस- -विभिः वैश्री  
 २, ७ : ६; हिश्री ३, ५, ११;  
 -विषाम् हिश्री ३, ५, १२; मीसू  
 ५, ४, ८; -विषोः हिश्री ६, ५,  
 १८; -विषु वौश्री २०, १८ :  
 १५; मीसू ११, ४, १२; -वीषि  
 आपश्री ५, २१, १; ६, १६, ९;  
 वैश्री १, १६ : ५; २०, ४ : १०.  
 पवमानां( न-अ)च्छावाक-साम-  
 न्- -न्नाम् निसू ६, ११ : २९.  
 ?पवमाना दंडनलोकम् वाश्री ३,  
 २, ५, ३४.

a) =√प. इत्येवं भातुपरो निर्देशः [तु. सा (बुधचवती- [तैत्रा १, ३, १, ३])]. b) वैप १. द्र. ।  
 c) पाभे. वैप १, ७३५१ द्र. । d) सपा. णाः <> न्यः इति पाभे. । e) = इष्टि-विशेष- । f) पाभे. वैप १,  
 २०६७ h द्र. । g) पव इति पाठः? यनि. शोधः । h) न्यम् इति पाठः? यनि. शोधः [तु. वौध ४, ७, ५] ।  
 i) पस. > वस. । j) वैप २, ३३८. द्र. । k) ण्नी इति संस्कर्तुः टि. ।

पवमाना(न-अ)नुमन्त्रण- -णेन  
वाश्री ३, ४, २, १.

पवमाना(न-अ)न्य- -न्यम्  
निसू ६, १००; १९, २५.

पवमाना(न-अ)न्वारम्भण- -णम्  
वाश्री १, १, ६, ४.

पवमाना(न-अ)भिमन्त्रण- -णम्  
वाश्री ३, २, २, ४३<sup>३</sup>; -णानि  
हिश्री १६, २, १४<sup>३</sup>.

पवमाना(न-आ)हुति- -तीः  
हिश्री ३, ४, ४२.

पवमाने(न-इ)ष्टि- -ष्टिम् वीध  
१, ६, ४९.

पवमानो(न-उ)पाकरण- -णम्  
काश्री ९, ६, ३४; १०, १, १६.

पवयित्- -ता वीश्री १६, १: १६.

पवयित्वा वीश्री २, ८: १३; १२,  
१७: १३x; जैश्री ८: २५.

पवयिष्यत्- -ष्यन् आपश्री १९,  
१२, ९; वीश्री १९, ३: २४;

हिश्री २३, २, २०.

पवित- पा १, २, २२.

पविता (त-अ) भिव्याहा (र>)  
रा<sup>३</sup>- -रा निसू ९, ३: १८; २१;

१०, ७: ३५; -रा: निसू ६, ११:  
९.

पवितवत्- पा १, २, २२.

पवित्र, त्रा<sup>०</sup>- पा ३, २, १८५; १८६;  
पान २, ४, ३१; ४, १, ११०;

-त्र: शाश्री १५, १२, ५; काश्री  
१५, १, ३०; वीश्री; ऋश्री २,  
९; ६७; ७३; ८३; साश्री १,  
५६५<sup>०</sup>; -त्रम् ऋश्री २, १२, ४;

४, ६, २३; शाश्री; आपश्री १,  
१२, ६; २०, २६, १२; १२,  
१२, १२; १४, ११; १६, १०;

११; १९, ६, ८; २१, २०, ७<sup>३</sup>;  
भाश्री १, ६, ११<sup>३</sup>; १०, १७,  
१८; माश्री १, १, २, २<sup>३</sup>; २,  
३, १, १८; वाश्री १, २, २, ६<sup>३</sup>;

वीश्री ३, ५: ११<sup>३</sup>; १२, ५: ६;  
हिश्री १, ३, ३<sup>३</sup>; जैश्री ८: २१<sup>३</sup>;

लाश्री १, १०, २०<sup>३</sup>; कौश्री ३, १४,  
१२; वैश्री २, ३: ६; कौसू ६६,  
१६<sup>३</sup>; कप्र १, २, १०<sup>३</sup>; २, १, ३<sup>३</sup>;

अप ४८, ७५<sup>३</sup>; वीध २, ६,  
२६<sup>३</sup>; निघ १, १२<sup>३</sup>; याश्री ५, ६<sup>३</sup>;

श्री; १४, ११; १३<sup>३</sup>; -त्रयो:  
काश्री ३, ४, २१; वीश्री २०,  
५: १८; आपश्री १, १९; -त्रस्य

आपश्री १२, १३, १; वीश्री; -त्रा:  
आपश्री १०, ६, १<sup>३</sup>; हिश्री;

-त्राणाम् विध ६४, ४०; -त्राणि  
शाश्री ८, ९, २; वाश्री ३, ३, २,  
७; सु; -त्रात् माश्री २, ४, ३,  
२९<sup>३</sup>; वैताश्री १६, १७;

-त्राम्याम् काश्री २, ५, १३;  
आपश्री; भाश्री २, ६, १३; -त्राय

शाश्री १५, १२, ३; -त्रे आश्री  
२, १२, ४; ५, १२, १५; शाश्री ७,  
१५, १३<sup>३</sup>; काश्री; या १४,  
१६<sup>३</sup>; -त्रेण आश्री ९, ३, २;

शाश्री १५, १५, ६<sup>३</sup>; आपश्री  
१९<sup>०</sup>, ७, १<sup>३</sup>; ४-६; वीश्री; या ५,  
६<sup>३</sup>; -त्रैः आपश्री ४, ५, ६;

भाश्री ४, ७, ५; हिश्री.

पावित्रायण- पा ४, १, ११०.

पवित्र-क- -कम् जैश्रीका ९९.

पवित्र-काम- -मः वीध ३, ७, ५.

पवित्र-कापायवासो-वर्जम् वीध  
३, २, १४.

पवित्र-क्रिया- -यया वीध ४,  
८, ४.

पवित्र-चमस-स्फ्य-कपाला(ल-  
अ) गिनहोत्रहवणी-शूर्प-कृष्णा-

जिन-शम्भो(म्या-उ)ल्लखल-मूस-  
ल-टपद्-उपल-वेद-कुटरु-सुव-जु-

हू(हू-उ)पशुद्-धवा-प्राशित्रहरणे  
(ण-इ)डापाभ्या(त्री-आ)ज्यधान-

पात्री-संवपनपात्री- -त्रीः माश्री  
१, २, १, ४.

पवित्र-दशा- -शामिः आपश्री  
१२, १४, ९; १०.

पवित्र-दीक्षा-स्थान- -ने काश्री  
१५, १, १७.

पवित्र-नाश- -शे वीध ४, ९, ४.

पवित्र-पति<sup>०</sup>- -ते आपश्री  
१०, ७, १३; वीश्री ६, २: २२;

भाश्री.

पवित्र-पाणि<sup>०</sup>- -णिः वाश्री १,  
२, ४, १२; आश्री २, ३, ३:  
४x; वैश्री; -णी आश्री १, ७,  
१: ६.

पवित्र-पूत- -तस्य शुप्रा २,  
१९<sup>३</sup>.

पवित्र-वत्- -वता वीश्री २०,  
१६: २६; २१, ३: १६; -वति

शाश्री १, १२, ८; आपश्री;  
-वन्तः वीश्री १९, १०: ३०;

a) परस्परं पामे. । b) विप. । वस. । c) वैप १३. । d) = सोमयांग-विशेष. । e) = ऋषि-  
विशेष. । f) = दशापवित्र. । g) पामे वैप १२, १५१४४ द. । h) = [प्रादेशामत्र.] दर्भमय-उपकरण. ।  
i) पामे. पृ ७८५ e द. । j) = (दर्भमय-) अनामिकावेष्टन. । k) = संव-विशेष. । l) = दर्भ. । m) = उदक. ।  
n) = कुशमुष्टि. । o) पत्रेण इति. C. शोवः । तु. सप्रः वीश्री १७, ३४ ३, ७ इयेनपत्रेण इति पामे. । p) पामे,  
वैप १, २०६८ d द. ।

या १२, ३२, ६; -वन्तौ आगृ ३,  
२, ३; आमिगृ २, ६, ४: ४.

पवित्रवती- तीभिः गौघ  
२६, १०<sup>०</sup>; -त्यः वौश्रौ १९, १०:  
३१<sup>०</sup>; -त्या आपश्रौ १, १७,  
१०; वौश्रौ १, ५: ६; १५;  
५, ११: ७; -त्याः माश्रौ ४,  
२, ३१; -त्याम् आपश्रौ १, २४,  
१; वौश्रौ.

पवित्र-समूह- हेन वौघ २, ४,  
४.

पवित्रा(त्र-अ)ख्यान- नम्  
वृदे १, ३६.

पवित्रा(त्र-अ)तिपवित्र- -त्रस्य  
वौघ ३, ५, १.

पवित्रा(त्र-अ)त्मन्<sup>०</sup>- -त्मा  
अप ३८, १, ३.

पवित्रा(त्र-अ)न्त- -न्तेन वैश्रौ  
१५, १५: ८.

पवित्रा(त्र-अ)न्त(र>)रा<sup>०</sup>-  
-रा वाश्रौ १, ३, १, २४<sup>०</sup>; -रा:  
वाश्रौ १, २, ४, ८<sup>०</sup>.

पवित्रा(त्र-अ)न्तर्हित, ता- -त्तम्  
आपश्रौ १, १६, ३०; -तान्  
कागृ ३९: ८; गोगृ १, ७, ६;  
कप्र १, ४, ९; -तायाम् आपश्रौ  
१, ११, ९; २, ६, १<sup>०</sup>; भाश्रौ; -ने  
भाश्रौ १, १८, १; माश्रौ; -तेषु  
गौपि २, ३, १४; शंघ २१४.

पवित्रा(त्र-अ)र्थ<sup>०</sup>- -र्थान् आपघ  
१, २७, २; हिघ १, ७, २७.

पवित्रे(त्र-इ)ष्टि- -ष्टिः वौघ ४,  
६, २; -ष्टिम् आश्रौ २, १२, ६<sup>०</sup>;  
वौश्रौ २८, २: ५७; वाघ; -ष्टया

वौश्रौ: २८, २: २<sup>०</sup>; -ष्याम्  
आश्रौ २, १२, १.

फूप(वि>)वीर्त्- -न्तारः ऋप्रा  
९, ५१; -तारम् ऋप्रा ९, ५२<sup>०</sup>.

रपावक, का<sup>०</sup>- पावा, पावाग ७, ३,  
४५; -फूंक आश्रौ २, १, २५<sup>०</sup>;  
३, १२, २७x४; शाश्रौ; या १२,  
२२-२५; -फूंकः आश्रौ २, १,  
२५; १२, २३; ५; ३, १२, २७;

शाश्रौ; -कम् शाश्रौ २, ३, १०;  
कौसू ७३, १<sup>०</sup>; कप्र; या १४, ५;  
-फूंकया आश्रौ २, १२, ३;

वौश्रौ; -कस्य वौश्रौ २८, २:  
३०; ३९<sup>०</sup>; वैश्रौ; -फूंका  
आश्रौ २, ८, ३; शाश्रौ २,  
४, ४; ७, १०, १५; काश्रौ;

या ११, २६; -फूंकाः आपश्रौ  
१०, ६, १<sup>०</sup>; वौश्रौ; -काय शाश्रौ  
२, २, ७; १४, २, १४; १८; काश्रौ;

-के आमिगृ २, ४; १००: ३;  
११; कौसू.

पावक-दीप्ति<sup>०</sup>- -सिम् या ४,  
१४.

पावक-वत्- -वते शाश्रौ ३, १९,  
१५; आपश्रौ ९, ९, १; १४<sup>०</sup>;  
भाश्रौ; -वन्तौ आश्रौ २, १२, ३;  
वौश्रौ २८, १: १७; २: २२;

-वान् आश्रौ ३, १२, २६.  
पावकवती- -स्यौ आश्रौ २,  
१२, २; वौश्रौ २८, १: १६; २:  
२१; वैश्रौ २०, ३३: ९.

पावक-वर्ण<sup>०</sup>- -र्णाय गौघ २६,  
१२<sup>०</sup>.

पावक-शुचि<sup>०</sup>- -चिभ्याम्

आपश्रौ ५, २१, ७.

फूंपावक-शोचि<sup>०</sup>- -०चे आश्रौ  
४, ७, ४.

फूंपावक-शोचिस्<sup>०</sup>- -विषम्  
आश्रौ ७, ११, १४; १७; या  
४, १४<sup>०</sup>.

पावका(क-अ)भिव्याहा(र>)-  
रा<sup>०</sup>- -राः निसू ६, १३: १.

पावना<sup>०</sup>- पांग ४, १, ४१; -०न  
विघ १, ५७; -नम् काश्रौ १०,  
३, १७; मागृ; अप ४८, ७५<sup>०</sup>;  
-नानाम् अप ३८, १, १; -नानि  
वाघ २२, ९; वौघ ३, १०, ११;

गौघ १९, १३; -नाय अप ७०,  
१, १०; वृदे ८, ६२; -ने वाघ  
११, १६.

पावनी- पा ४, १, ४१; -नी  
विघ ९९, ४.

पावना(न-अ)र्थ<sup>०</sup>- -र्थम् वैश्रौ १,  
४: ४.

पावयत्- -यन्तम् वैताश्रौ ३०, ९.

पावयित्वा माश्रौ २, १, १, ४५; वौघ  
३, १, ८; वैघ ३, १५, १३.

पावित- -तः माश्रौ ५, २, ११, २१;  
अप ४१, ३, १०.

पाव्यमान, ना- -नः आपश्रौ १०,  
७, १२; भाश्रौ १०, ५, ४; हिश्रौ  
१०, १, ५०; वैताश्रौ ११, १०;  
-नाम् वैताश्रौ ३०, ७.

फूंपुनत्- -न्त् आश्रौ<sup>०</sup> १०, ८, १२<sup>०</sup>;  
१३<sup>०</sup>; शाश्रौ १६, ४, २; लाश्रौ<sup>०</sup>  
९, १०, ३<sup>०</sup>; ४<sup>०</sup>; वैताश्रौ ३६, ३१;  
-नन्तः या ४, १.

पुनती- -फूंवी आपमं २, २, ९;

a) = ऋन्- । b) विप. । वस. । c) पाठः ? श्राम् इति शोधः । तु. सप्र. आपश्रौ २, ६, १ पवित्रान्त-  
हेतायाम् इति पामे. । d) उत्तरेण-संधिरार्पः । e) = मृगारादये(वा-इ)ष्टि- इति भाष्यम् । f) वैप १ द्र. ।  
g) पामे. वैप १, २०६७ III द्र. । h) = [उपचारात्] इष्टि-द्वय- । i) विप., नाप. । j) = उदक- ।  
k) पुनर्निव इति पाठः ? पुनत् ह्व इति शोधः । (तु. मा २३, २६; २७) ।

कौट २, १, २९; शां. १  
 १ पुनान, ना- -नः आपश्रौ १६, २०,  
 १४; हिश्रौ ११, ६, ६१; छसू;  
 या ६, २८; -नाम् निसू ९, ४:  
 २१; -नाय ऋअ २, ९, १०३.  
 पुपूपाण- -णः वौश्रौ १४, १३:  
 १६.  
 पूत, ता- पाग २, ४, ३१; -तः शांश्रौ  
 १५, १२, ५; काश्रौ; -तम्  
 आपश्रौ १०, ७, १३; १९, २१,  
 १७; वौश्रौ; कौसू २, ३२<sup>२</sup>;  
 -ता आमिगृ २, ६, २: १८<sup>३</sup>;  
 वाघ २१, १-३; ६-८; वौध  
 २, ५, ११<sup>१</sup>; -तः आपश्रौ  
 १, १४, ३; वौश्रौ १, ३: २६;  
 भाश्रौ; -तात् अप २, ६, ५;  
 -ताम् काश्रौ १९, २, ८; आपश्रौ;  
 -तम् आपश्रौ १, ११, ९; वौश्रौ  
 १, ४: १९; भाश्रौ; -तेन जैगृ २,  
 १: ३९<sup>१</sup>; गो २, २६.  
 पूत-काम<sup>१</sup> -मः आमिगृ २, ४,  
 ५: १.  
 पूत-किल्बिष<sup>१</sup> -पः अप ४१,  
 ३, १०.  
 पूत-क्रतु<sup>१</sup> > पूतक्रतायी- पा,  
 पावा ४, १; ३६.  
 १ पूत-दक्ष<sup>१</sup> -क्षम् आश्रौ ७,  
 २, २; ५, ९.  
 २ पूत-दक्ष<sup>१</sup> -क्षः ऋअ २, ८,  
 ९४; साअ १, १४९; १७४.  
 पूत-भृत्<sup>१</sup> -भृत् जैश्रौ १८:  
 ९; द्राश्रौ ३, ४, ३८; लाश्रौ १,  
 १२, २२<sup>३</sup>; -भृत्: काश्रौ ९, ५,

२०; १०, ४, ३××; आपश्रौ;  
 -भृत्तम् काश्रौ ९, २, २०;  
 आपश्रौ; वौश्रौ ७, ७: ३०<sup>१६</sup>;  
 -भृत्ति काश्रौ ९, ७, ३; १४,  
 २××; आपश्रौ.  
 पूतभृद्-आधवनीय- -ययो:  
 वौश्रौ २३, ५: २०; -यौ काश्रौ  
 ९, ७, १२; आपश्रौ.  
 पूत-यव- पाग २, १, १७<sup>४</sup>.  
 पूता(त-आ)त्मन्<sup>१</sup> -त्मा वौध  
 ४, ७, १०.  
 पूत्रिम<sup>१</sup> -मम् अप्रा ३, ४, ५<sup>१</sup>.  
 पूत्वां कागृ २, ५, ९<sup>१</sup>.  
 पूत्वी ऋप्रा ४, ६३<sup>१</sup>.  
 पूत-पावा ८, २, ४४.  
 पूयमान- -तः ऋप्रा ८, ७<sup>१</sup>; -नस्य  
 या ५, १२; -नाः आपश्रौ १७,  
 १८, १<sup>१</sup>.  
 पूयमान-यव- पाग २, १, १७.  
 ?पू<sup>१</sup> आपश्रौ ४, ४; ४<sup>६</sup>; भाश्रौ ४, ५,  
 ५; वाश्रौ १, १, २, १६; हिश्रौ  
 ६, १, ५१<sup>६</sup>.  
 पूर-इन्द्र(म>)मा<sup>१</sup> -मा आपश्रौ  
 ४, ४; ४; भाश्रौ ४, ५, ५; वाश्रौ  
 १, १, २, १६; हिश्रौ ६, १, ५१.  
 पूकर<sup>१</sup> (> पौकरीय- पा.) पाग ४,  
 २, ८०.  
 पूग<sup>१</sup> -पाठ १, १२४<sup>४</sup>; पाग २, १,  
 ५९; ४, ३, ५४; -गात् पा ५, ३,  
 ११२; -गेषु पा ६, २, २८.  
 पूग-तिय- पा ५, २, ५२.  
 पूग-शस्(ः) वौश्रौ ११, ६: २८;  
 १२, ७: ३८.

पूय- पा ४, ३, ५४.  
 पूगर<sup>१</sup> (> पौगरीय- पा.) पाग ४,  
 २, ८०.  
 √पूज पाधा: सुरा. पर. पूजायाम्,  
 पूजयति वैगृ ४, ३: १०; १३:  
 २; अप; या १४, २७<sup>२०</sup>; पूज-  
 यन्ति आमिगृ २, ५, १: ५५;  
 जैगृ २, ९: ४०; कप्र १, १, १३;  
 या २, २६; ८, २; १०, ३९;  
 पूजयामि या ९, १६; पूजयेत्  
 आमिगृ २, ४, १०: ४; ९; ११;  
 वैगृ; पूजयेयुः आपध २, ४, २०.  
 पूजयाम् √अस्, पूजयामास  
 विध १, ३०.  
 पूज्यते अप १४, १, १०; पूज्यन्ते  
 कौट ३, १२, ९; अप ७०<sup>३</sup>, १६,  
 १३; २;  
 पूजक- पाग २, २, ९; ६, २, १५१.  
 पूजन- -नम् वैगृ ३, २३: १५; ४,  
 ७: १०; ५, ३: ११; कप्र; -नात्  
 अप ७०; १०, ४; पा ५, ४, ६९;  
 ८, १, ६७.  
 पूजना(न-अ)र्थ- -र्थे या १२, ७.  
 पूजनिक<sup>१</sup> (> पौजनिक्य-  
 पा.) पाग ५, १, १२८.  
 पूजनीय, या- -न्यम् या ७, २६;  
 -न्या: कप्र १, १, १३; १७.  
 पूजयत् -न्य विध ५, ९३; या ३,  
 ४.  
 पूजयितव्य- -न्यम् या ५, १४;  
 -न्या: वैध २, ११; २.  
 पूजयित्वा वैगृ २, १५: ११; ५, ७:  
 ८; अप.

a) पाभे. वैप १, २०७१ h द्र. 1. b) पू. भावे क्तः प्र. 1 c) विप. 1 वस. 1. d) =इन्द्र- (तु. शकः) 1 वस. 1 e) वैप १ द्र. 1 f) =ऋषि-विशेष- 1 g) भृत्तत् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. उत्तरं स्थलम्) 1 h) ?पूनयव- इति भोजः इति पागम. 1 i) पाभे. वैप १, २०७२ 1 द्र. 1. j) अर्थः व्यु. ज? 1 k) पूर इति पाठः? यनि. शोधः (तु. भाश्रौ. वाश्रौ.) 1 l) तु. पागम. 1 m) =संघ- 1 व्यु. ? 1 n) < √पू इति 1 o) तु. राज.; वैत. ल. पूरयति इति 1. p) =पूजा-वत्- (तु. पूजनीक इति पंजा.) 1 मत्स्यीयम् उठ. प्र. 1

पूजियप्यत्- -प्यन्तः आरु ३,९,३.  
 पूजा- पा ३, ३, १०५; -जा अप  
 ६८, ५, १९; आपघ; -जाभिः  
 अप ६८, १, २४; -जाम् शांठ  
 ४, ५, १४; आम्रिष्ट; -जायाम्  
 आपघ १,२०,५; २,६,६; विघ;  
 या-१,४; ३, १८; पा १,४,९४;  
 २,२,१२××.  
 पूजा-कर- -न्म् या ५,१४.  
 पूजा-कर्मन्- -मैणः या २,२६;  
 -र्मा-या ७,१५; १०,१६.  
 पूजा-तस्(ः) गौघ १७,१८.  
 पूजा(जा-अ)ह- -हम् विघ५,६३  
 पूजित,ता- पाग ५, २, ८८; -तः  
 वौश्री १२, ६ : ५; -तम् अप  
 २१,६, १; पा, मात्रा ८,१, ६७;  
 -तस्य पावा ८, १, ६७; -ताः  
 आम्रिष्ट २,५, १ : ५५; जैष्ट २,  
 ९ : ४०; कर्ष; -तान्-विघ-२१,  
 १; -तानाम् अप ७०,९,१.  
 पूजितिन्- पा ५,२,८८.  
 पूजिल- पाठ १,५६.  
 पूज्य वौघ २,३, १८; ९,५.  
 पूज्य,ज्या- -ज्यः वाघे १, ३८;  
 -ज्यस्य अप ७०,१०,४; -ज्याः  
 कप्र १,१,१२; -ज्यान् वौघ २,  
 ३,५५; -ज्येषु अप ७०,१६,  
 १; -ज्यौ वौघ २,३,५७.  
 पूज्यमान- -तः अप २१, ६, ७;  
 -न्म् पा २, १, ६२; -नैः पा  
 २,१,६१.

पूत-दार- -रम् अशां १९,१.  
 पूतदारव- -वैः माश्री १,७,३,  
 ३४.  
 पूतदार-गुगुल-केरु-सुगन्धितेज-  
 -न्म् माश्री १,७,३,३५.  
 पूत(न>)ना- पाठमो २,२,२०६.  
 पूतर- (>पौतरीय- पा.) पाठमो २,  
 ३,६७; पाग ४,२,८०.  
 पूति->पूति-रज्जु- -रज्जुः कौस्  
 १६, १०; अत्र ८, ८; -ज्जुम्  
 कौस् १६,१०.  
 पूति- प्रम्. √पू द.  
 पूतिक,का- पाग ४, २, ७५; ५, १,  
 १२८; -काः आपश्री १,१,१४;  
 -कान् वैश्री १३, २ : १; हिश्री  
 २४,१,१०; -कैः वैश्री ३,८:७.  
 पूतिक- पा ४,२,७५.  
 पूतिक्य- पा ५,१,१२८.  
 पूति-नृण- -णानि वौश्री १०,१३ :  
 ८; १४, १३ : २६; २९; वैश्री  
 १२,७ : १.  
 पूतिमाप- पाग ४,१,१०५; २,१११;  
 -पाः वौश्रीप्र-२३ : ३; ४५ : ७.  
 पूतिमाप्य- पा ४,१,१०५.  
 पूतिमाप- पा ४,२,१११.  
 पूतीक- पाठमो २, २, २०; -कम्  
 माश्री ४, १, ९; ११; -काः  
 आपश्री १४, २४, १५३; -कान्  
 आश्री ६,८,५; शाश्री १३,६,३;  
 काश्री; -कैः आश्री ६, ८, ६;  
 हिश्री १,३,५३.  
 पूतीका(क-अ)भाव- -वैः आपश्री  
 १४,२४,१२.

पूतीकी- (>पौतीक-)  
 पूत-दार- -रु अप ३७,९, २; -रम्  
 कौस् ५८,१५.  
 पूतदारव- -वे वाधुश्री ३,  
 ८६ : ६; -वेम्यः हिश्री ४,५,  
 ६५; -वौ वाधुश्री ३,७६ : ७.  
 पूतदार-मणि- -णिः अप ३७,९,२.  
 पूत-दु- -दुः अप्रा ३,४,११.  
 पूतद्व- -वम् वौश्री १५, २२ :  
 १७; -वान् वौश्री ४,१ : १; ३ :  
 ११; माश्री; -वेण आपश्री २३,  
 ७, ९; वौश्री १५, २४ : २०;  
 -वैः आपश्री ७, ५, ६; हिश्री ४,  
 २, १३; -वौ आपश्री २०,९,७;  
 वौश्री.  
 पूत्रिम- प्रम्. √पू द.  
 पूप- पाग ५,१,४; -पम् अप १२,  
 १,८.  
 पूय- पा ५,१,४.  
 पूय पाधा. स्वा. आत्म. विराणे  
 दुर्गन्धे च, पूयति आश्री ५,४,८.  
 पूति- > पूति-गन्ध- -न्धः  
 वौश्री २९, ४ : १५; १७; वैश्री  
 २१, ४ : २; आपघ-१, १०,  
 २४; -न्धे आपघ १,११,३१०;  
 वौघ १,११,३३.  
 पूतिगन्ध-प्रमृति- -नौ वाघ  
 १३,१७.  
 पूतिगन्धा(न्ध-अ)न्तश्शव-  
 दिवाकीर्त्य-श्रुत्सन्निधान-  
 -ने गौघ १६,१६.  
 पूति-गन्धि- पा ५, ४, १३५;  
 -न्धि-विघ ६१,१०.

√पूण √पूल् टि. द.  
 पूत- प्रम्. √पू द.

a) लस. उप. करणे प्र. । b) विप. । वस. । c) वैप १,२०२० b द. । d) तु. पागम. ।  
 e) वैप १ द. । f) का- इति [पक्षे] भाषडा. पासि. पाठः, पूतीकी- इति पाका. । g) =पूतीक- ।  
 h) =पूतीक-नृण- इति विवरणकारः (तु. वौश्री. सूत्री) । i) =ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । j) बहु. <पूतिमाप्य- ।  
 k) =पौतु-दार- । l) विकाराद्धे प्र. । m) =अपू- । व्यु. ? । n) वैप १,२०,७३ h, i द. ।  
 o) लपा. पति<>पती इति पाभे. । p) दस. (वैतु. [पक्षे] भाष्यकारोऽन्यथाव्याख्यानः) ।



पूति-ना(सा>)स<sup>a</sup>- सः विध  
 ४५,७.  
 पूति-मृत्ति (का>)क<sup>b</sup>- कम्  
 विध ४३,१५.  
 पूति-वक्त्र<sup>a</sup>- वक्त्रः विध ४५,८.  
 पूति-शकरी<sup>c</sup>- रीभिः कौस्  
 २७,३२.  
 पू(ति>)ती-गन्ध- न्धः हिध  
 १, ३, ५१<sup>d</sup>; -न्धाय तैप्रा ३,  
 ७<sup>e</sup>; -न्धे हिध १,३, ८२<sup>d</sup>.  
 पूय<sup>e</sup>- पाग ४, १, ४१<sup>f</sup>; -यम् अप  
 ७१, १४, ३; विध ४३, ३९.  
 पूयी- पा ४, १, ४१.  
 पूय-गन्धि<sup>g</sup>- न्धि विध ४३,  
 ३९.  
 पूय-शोणित-कर्दम- मः शंघ  
 ३७४.  
 पूय-शोणित-गन्ध- न्धेन विध  
 ४३, ३६.  
 पूय-शोणित-संपूर्ण- णे शंघ  
 ४४०.  
 पूय-शोणित-संभव<sup>h</sup>- वे वौध  
 १, ५, १२३.  
 पूयमान- √पृ. द्र.  
 पूर- (> २पौरय- पा.) पाग ४,  
 २, ८०.  
 पूरण<sup>k</sup>- णः ऋग्र २, १०, १६०;  
 अग्र २०, ९६; -णाः<sup>l</sup> आपथौ  
 २४, ९, ९; वौश्रीप्र १ : ५; ४० :  
 १; हिश्री २१, ३, १२.  
 पौरण- ंण आथौ १२, १४, ५;  
 आपथौ २४, ९, १०<sup>m</sup>; हिश्री २१,

३, १२; -णः वौश्रीप्र ४० : २.  
 पूरण-वत् आपथौ २४, ९, १०; वौश्रीप्र  
 ४० : २; हिश्री २१, ३, १२.  
 पूरण-वारिधापयन्त- न्तानाम्  
 आथौ १२, १४, ५.  
 २पूरण- पूरयत्- प्रमृ. √पृ. पृ. द्र.  
 पूरु<sup>n</sup>- -रवः अप ४८, ७८; निघ २,  
 ३; या ७, २३<sup>o</sup>; -रुः ऋग्र २,  
 ५, १६<sup>p</sup>; -रुह्यु आपमं २,  
 ८, ३; भाग्य २, २१ : १८<sup>q</sup>;  
 हिश्री १, १०, ६<sup>r</sup>; ११, ३.  
 पौरव- पावा ४, १, १६८.  
 पूरुप<sup>k</sup>- -रपः शांथौ १२, २०, २;  
 २२, १; ऋप्रा ९, ४०; शुप्रा  
 ३, ११९; -पम् वाग्य १, २३<sup>s</sup>;  
 विध २०, ५; -रपाः<sup>m</sup> पाग्य १,  
 ८, १०; आश्रित्य १, ५, ४ : ५०;  
 हिश्री १, २२, ९; -०<sup>t</sup>पाः<sup>m</sup>  
 शांथौ १२, १५, १; आपथौ;  
 हिश्री १५, ७, २३ वौगृ १, ५, ७;  
 -पान् गौध २३, ३२.  
 पूरुप-घ<sup>k</sup>- घम् ऋप्रा ९, ५०<sup>u</sup>.  
 पूरुप-व- > व-त्ता- ता ऋप्रा  
 ९, ५१<sup>v</sup>.  
 पूरुया(प-अ)द्- पाद्ः वृदे २,  
 १११; या २, ६<sup>w</sup>; ऋप्रा ९, ५०.  
 पूर्ण-; पूर्त्-; पूर्ति- √पृ. पृ. द्र.  
 पू<sup>x</sup>?पूर्ती<sup>m</sup> माग्य १, ८, १११; वाग्य १४, १.  
 पूर्वो- √पृ. पृ. द्र.  
 पूर-दशम- ?पृ. द्र.  
 पूर्यमाण- √पृ. पृ. द्र.  
 √पूर्व<sup>o</sup> पाधा. चुरा. उभ. निकेतने

पूर्व, वर्त्- पाग १, १, २७; २, ४,  
 ३१; पावाग ४, ३; ५१<sup>y</sup>; -र्वः  
 आथौ ८, १, २; ५, १०××;  
 शांथौ; या ३, १६××; पा १,  
 १, ६५××; -र्वःऽ-र्वः काथौ  
 ९, १३, ३; १५, ७, १२××;  
 आपथौ; या १२, ५<sup>z</sup>; -र्वम्  
 आथौ १, १, ३; २, ६××;  
 शांथौ; दाथौ ६, १, १३<sup>z</sup>; या २,  
 २<sup>z</sup>; ४, १०<sup>z</sup>; ५, ७; २८××;  
 नाशि २, १, १०<sup>z</sup>; पा २, २, ३०;  
 ६, १, १९२; २१९××; पावा २,  
 २, ३५<sup>z</sup>; -र्वम्ऽ-र्वम् काथौ १,  
 ८, ३१; ३, २, २०××; आपथौ;  
 -र्वया आथौ २, १०, ७; ४,  
 १०, १××; शांथौ; या २, २८;  
 -र्वयोः आथौ ५, ६, २७; शांथौ  
 १०, ५, १९; काथौ; -र्वस्मात्  
 आथौ ८, ७, १५; काथौ १७, ६, ५;  
 माथौ; -र्वस्मिन् आथौ ६, १६;  
 ११, ३, ८; शांथौ; आपथौ १४,  
 २३, १३<sup>z</sup>; पा ३, ४, ४; ७, १, १६;  
 -र्वस्मिन्ऽ-र्वस्मिन् आपथ १,  
 १, ८; हिध १, १, ८; -र्वस्य आथौ  
 १, ५, २९<sup>z</sup>; ४, १३, ७××;  
 शांथौ; या १, १३; १४; पा १, १,  
 ६६; ४, ४०; ६, ३, ११०××;  
 मीस् ५, ३, १६<sup>z</sup>; -र्वस्यऽ-र्वस्य  
 वैश्री १५, ३४ : ३; हिश्री ८,  
 ८, ३; -र्वस्याः शांथौ २, ९,  
 ४; ५, ११, ३; काथौ; -र्वस्याम्  
 आथौ ६, ३, ११; शांथौ; वैगृ

a) विप. । वस. । b) = नरक-विशेष- । वस. । c) मलो. कस. उप. = मत्स्यमेद- । d) पाभे.पृ १६१६ ०  
 द्र. । e) वैप २, ३खं. द्र. । f) तु. पागम. । g) = पूति-गन्धि- । h) = ऋपि-विशेष- । व्यु. ? । i) वहु.  
 < पौरण- । j) वप्रा. । k) वैप १ द्र. । l) पुं. इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपमं. प्रमृ.) । m) पाभे.  
 वैप १, २०५२ i द्र. । n) पाभे. वैप १, २०७२ l द्र. । o) तु. BPG. । p) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र. ।  
 q) तु. पाका. । r) सपा. पूर्वम् <> पूर्वम् इति पाभे. । s) पूर्वात् इति लासं. । t) तु. पासि. ।  
 u) पाठः ? मध्यमे इति शोधः [तु. रुद्रदत्तः C. च] । v) णा तु. पूर्वस्य इत्यस्य स्थाने णानुपूर् इति जीसं. ।  
 वैप-तृ-२१

१,१४: ७<sup>a</sup>; अप २५, १, ५<sup>b</sup>;  
 या ५, २८××; -र्वस्यै शाश्रौ  
 १७,४, २; आपश्रौ १५, ६, १४;  
 -र्वा आश्रौ ७, ७, ८; शाश्रौ;  
 ऋया ३, २२; ११, २९; ३१;  
 -र्वाऽर्वा वौश्रौ २२, २०: ३;  
 शंघ ८५; -र्वा: शाश्रौ ६, ११,  
 १२; ९, २८, ७××<sup>c</sup>; वौश्रौ; या  
 ९, २८<sup>d</sup>; -र्वाऽर्वा: वैश्रौ २०,  
 ९: ३; -र्वाणि आश्रौ ६, ३, ४;  
 ७, १२, १२; शाश्रौ ३, १०, ३××;  
 आपश्रौ; -र्वात् काश्रौ २५, १३,  
 १६; गौपि २, ३, ३८; अप;  
 -र्वात्ऽर्वात् वैश्र १, १: १८;  
 -र्वान् आश्रौ ९, ९, १६; आपश्रौ  
 १८, २, १४; ६, ५; वौश्रौ; -र्वाभिः  
 शाश्रौ १५, २३, १; आपश्रौ १४,  
 ३३, ७; वौश्रौ; -र्वाभ्यः अशां  
 १२, ३; -र्वाभ्याम् शाश्रौ २, ५,  
 २४; काश्रौ; -र्वाम् आश्रौ २, ३,  
 १७; २६××; शाश्रौ; -र्वाम्ऽर्वाम्  
 काश्रौ १६, ७; ७; १७, ४,  
 १९; आपश्रौ; -र्वासाम् आश्रौ  
 ६, ३, ४; वौश्रौ; -र्वासु शाश्रौ  
 ८, २२, १<sup>e</sup>; लाश्रौ; -र्वे आश्रौ  
 २, ४, २२××; शाश्रौ; आमिद्य  
 १, ३, २: १९<sup>f</sup>; या ७, ७<sup>g</sup>; २३;  
 १२, ७<sup>h</sup>; ४१<sup>i</sup>; पा ६, २, २२;  
 -र्वेण<sup>j</sup> आश्रौ १, १, ४; २, १९,  
 ३७; ३, ६, २०; ५, ३, २४; ७,  
 १; १०, २५: ६, १०, ३०;  
 १२, ५, १३; १४; शाश्रौ;  
 या १, ५; ५, १६; -र्वेणऽर्वेण  
 आपश्रौ ११, ११, ११; १२, १२;

७; १५, ८, ३; भाश्रौ; -र्वेभिः  
 काद्य ६६, ७; या ७, १६; शैशि  
 ३३५; -र्वेभ्यः काश्रौ १४, २,  
 १८; आपश्रौ; -र्वेषाम् आश्रौ  
 ६, २, १२; ३, १६; शाश्रौ; मीसू  
 ३, ६, ४५<sup>k</sup>; -र्वेषु आश्रौ ५, १,  
 ७; शाश्रौ २, ५, २०; १३, ५, १८;  
 आपश्रौ; या ४, ७; -र्वैः आश्रौ  
 ५, ९, ११; काश्रौ १५, ९, ४; २०,  
 ७, १२; आपश्रौ ११६<sup>l</sup>, २६, ६;  
 १२; १७, १७, ३; ५; २०, ६,  
 १३<sup>m</sup>××; वौश्रौ; वैश्रौ १८,  
 १९: १<sup>n</sup>; हिश्रौ ११, ७, ५१<sup>o</sup>;  
 या ७, १६; -र्वैऽर्वैः काश्रौ  
 १५, ४, ३७; -र्वौ आश्रौ ७, ३, १;  
 ९, ८, ९; १२, २, ६; शाश्रौ; पा  
 ७, ३, ३; -र्वौऽर्वौ वौश्रौ २१,  
 १४: ३१.  
 ऋपूर्वा<sup>p</sup> -र्वीः आश्रौ ७, २, १७;  
 ८, ६, १३; ९, ७, ३६; शाश्रौ;  
 या ६, १६; १०, ४१.  
 ?पूर्व-कर्तृ- -र्ता अप १, ८, ३.  
 पूर्व-कर्मन्- -र्म वाश्रौ १, ७, २, ४.  
 पूर्व-कल्प- -ल्पः शंघ ६४; -ल्पेन  
 पाद्य २, १०, १४.  
 पूर्व-काण्ड<sup>q</sup>- पावा ४, २, ५१;  
 -ण्डस्य अश्र २, १.  
 पूर्व-काय<sup>r</sup>-> ष्य-कृष्ण- -ष्णम्  
 काश्रौ २०, १, ३३.  
 पूर्वकाय-मध्यापरकाय- -यान्  
 काश्रौ २०, ५, १५.  
 पूर्व-कारिन्- -रिणः शाश्रौ १३, १, १.  
 पूर्व-काल- -लम् आमिद्य २, ४, ५:  
 २; ७, ११: २; -ले शुभ्रा ३, ४; पा

३, ४, २१; -लेन वौश्रौ २४, ६:  
 ७.  
 पूर्वकाल-त्व- -त्वात् मीसू ३,  
 ४, ४७.  
 पूर्वकालै(ल-ए)क-सर्व-जरत्-  
 पुराण-नव-केवल- -लाः पा २,  
 १, ४९.  
 पूर्व-कृत- -तम् विघ २०, ४७; उस्.  
 ३, ४; -तेभ्यः कौसू ८४, १४.  
 पूर्व-ग्रहण- पावा ७, ४, ६१; -णम्.  
 पावा ८, २, ४२.  
 पूर्वग्रहणा(ए-आ)नर्थक्य-  
 -क्यम् पावा ६, १, १७४.  
 पूर्व-चतुर्थ- -र्थः शौच २, ७; -र्थम्.  
 शुभ्रा ४, १२४.  
 ऋपूर्व-चित्ति<sup>s</sup>- -त्तये वीद्य ३, ११,  
 ३; -त्तिः आपश्रौ २०, १९, ७;  
 वौश्रौ १५, २९: १; १८, ४५:  
 १<sup>t</sup>; वाश्रौ ३, ४, ४, २<sup>u</sup>; हिश्रौ  
 १४, ४, ३२.  
 पूर्व-चोदन- -नात् मीसू १२, २, २४.  
 पूर्व-चोदना- -नया वाश्रौ १, १, १,  
 ७०.  
 पूर्व-चोदित- -ताः अप ६८, ५.  
 १४; -तान् अशां २३, ५<sup>v</sup>.  
 पूर्वचोदित-त्व- -त्वात् पाद्य २,  
 १७, ४.  
 पूर्व-ज- -जः कप्र १, ६, २; -जम्.  
 वाश्र १७: १२<sup>w</sup>; -जस्य  
 गौघ २८, ३; २९, ९; -<sup>x</sup>जाः  
 आमिद्य ३, ४, १: १८; वौपि  
 ३, २, ९; गौपि १, २, ११;  
 वाद्य ११, ४१<sup>y</sup>; -जान् वौश्रौ  
 १४, २०: १६<sup>z</sup>; -जानाम् गौघ

a) = पूर्वा-दिश- । b) पामे. वैप १, २०७५ C द्र. । c) पूर्वा इति पाठः ? यनि. शोधः । तु. वीद्यप.  
 १, १३, २५ । d) कचित् वा. क्वि. । e) पूर्वलिङ्गानाम् इति जीसं. प्रयासं. प्रमृ. । f) पामे. वैप ६, २०७६ b  
 द्र. । g) पामे. वैप २, ३३. पुराणैः माश १३, ४, ३, ३ टि. द्र. । h) वैप १ द्र. । i) कस. । पाप्र. काण्डः प्र. ।  
 j) एकदेशिसमासः (पा २, २, १) । k) वैप १, २०७५ e द्र. । l) = अप्सरो-विशेष- ।

६,३; वृद्धे ७, ७३; -जि आश्रौ  
१, ७, ७; २, ९, १४; शाश्रौ;  
-जेभ्यः हिपि १८: ६१; -जौ  
अप १, ४१, ४१; अशां ११, ४.  
पूर्वजे > जे-प्रभृति- -ति तैप्रा  
४, २३.  
पूर्व-जन्मन्- -न्मसु आमिगृ २, ४,  
५: २४; वौध ४, ७, ८.  
पूर्व-तर, रा- -राम् वौध २, ११, ३३;  
-रेभ्यः वाधुश्रौ ४, ४७: ४.  
पूर्व-तस् (: ) वैश्रौ १२, १३: ५; वैगृ  
५, २: १०; ५: १४; गोयृ.  
पूर्व-त्र पा ८, २, १; पावा १, १,  
५८××; पूर्वत्रसपूर्वत्र पावा ८,  
३, १.  
पूर्व-त्रिक- -कम् कप्र २, १, १४.  
पूर्व-ज्यह- -हः आश्रौ ८, ७, १८.  
पूर्व-त्व- -त्वम् निसू ६, १२:  
२४; -त्वात् निसू ६, ४: ८;  
९; मीसू १, २; २१××; -त्वे  
पावा १, ३, १०; ६, ४, १३०;  
८, ४, ६१.  
पूर्व-था या ३; १६१; ११; १२, ३४;  
शुप्रा ५, १२; पा ५, ३१११.  
पूर्व-दक्षिण, णा<sup>a</sup> -णः अप ६०, १,  
४; -णस्मिन् वैश्रौ १४, ८: ४;  
-णस्याम् काश्रौ १७, १, १५;  
-णे काश्रौ ८, ५, १३; १७, १०,  
४; -णेन काश्रौ ३, ७, २.  
पूर्वदक्षिण-तस् (: ) जैगृ २, ९: ९;  
अप ५२, ८, ५.  
पूर्व-दक्षिण- -णयोः वैश्रौ १, २: १.  
पूर्व-दक्षिणा(ण-अ) प (र >) रा<sup>b</sup>-  
-रासु वैश्रौ ९, ९: १०.  
पूर्व-द(त >) ता- -त्ताम् विध ५,  
१६०.

पूर्व-दिश-> ०दिश्य- -इयस्य  
वौश्रौ १९, १०: ४३.  
पूर्व-दीक्षा- -क्षा वौश्रौ २५, २९:  
९; -क्षाः आपश्रौ २०, ११, ४.  
पूर्व-दीर्घा(र्ध-अ)र्ध- -र्थम् पावा २,  
२, २८.  
पूर्व-देश-> ०शिक- -कः जैगृ २,  
९: २१.  
पूर्व-दौर्वल्य- -ल्यम् काश्रौ २५, ११,  
१२, मीसू ६, ५, ५४.  
पूर्व-द्वार- -द्वारा वैश्रौ १३, ११: ४.  
पूर्व-द्वार- -रस्य वैश्रौ १५, २४: ३;  
-रे जैश्रौका १३४.  
पूर्वद्वार-बाहु- -हू वैश्रौ १५,  
२३: १५.  
पूर्व-धृत्- -तम् विध २०, ५०; ६४,  
१३.  
पूर्व-नगरी- (> पौर्वनगरय- पा.)  
पाग ४, २, ९७.  
पूर्व-न(धृ >) धा- -धाम् शंघ  
२७३.  
पूर्व-निघात- -तस्य पावा १, १, ३९.  
पूर्व-निचित- -तम् विध ९४, १२.  
पूर्व-निपात- -ते पावा २, २, ३५;  
३६.  
पूर्वनिपात-प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा २,  
२, ३६.  
पूर्व-निमित्त-मानिन्<sup>c</sup> -निनः ऋप्रा  
११, ११.  
पूर्व-पक्ष- पाग ४, २, १३८; -क्षः  
ताश्रौ ९, ३, ३; १२; १०, १५, ६;  
भागृ १, १२: ३१; द्रागृ २, २,  
८; -क्षम् आश्रौ ३, १०, १८;  
१२, ६, १७; काश्रौ; -क्षस्य  
आपश्रौ १९, १२, १; ३; वौश्रौ;  
या ५, ११; -क्षात् वाधुश्रौ ४,

१९: ७; -क्षान् आपश्रौ १९,  
१२, ९; हिश्रौ २३, २, २०; -क्षे  
आश्रौ ८, १४, ३; काश्रौ २४, ४,  
१४; आपश्रौ; या ५, ११; -क्षेषु  
लाश्रौ ८, ११, ६; -क्षौ या ११,  
५.  
पूर्वपक्षिक- -कः निसू ५,  
८: २१; -कम् निसू ५, ८: २६.  
पूर्वपक्षा(क्ष-आ)दि<sup>d</sup> -दिम् या  
११, ६.  
पूर्वपक्षा(क्ष-अ)परपक्ष- -लौ अप  
१, १३, १; या ११, ५.  
पूर्वपक्षापरपक्षा (क्ष-अ) भी-  
ज्या- -ज्या निसू २, ५: ९.  
पूर्वपक्षीय- पा ४, २, १३८.  
पूर्वपक्षे(क्ष-इ)एका- -काः वौश्रौ  
१९, २: २३.  
पूर्व-पत्र- -त्रे आमिगृ २, ४; ११: ८.  
पूर्व-पद- पाग ४, २, ६०<sup>e</sup>; -दम्  
तैप्रा १, ४९; अप्रा ३, १, ५;  
भासू ३, १; पा ६, २, १; -दस्य  
वौश्रौ २१, ११: २०; माश्रौ २,  
१, ३, ३९; पा ७, ३, १९; पावा  
१, १, १९××; -दात् अप्रा ३, ३,  
१०; शौच ३, ७६; पा ८, ३,  
१०६; ४, ३; पावा ८, ३, १०३;  
-दान् अप १, ६, ६; -देषु  
काठश्रौ ८४.  
पूर्वपद-त्व- -त्वात् पावा ६, २,  
३६.  
पूर्वपद-निमित्त<sup>f</sup> -त्तानाम् शौच  
४, ७५.  
पूर्वपद-प्रकृति-स्वर- -रः अप्रा  
१, ३, १; -रात् पावा १, ४, २.  
पूर्वपदप्रकृतिस्वर-त्व- -त्वम्  
पावा २, १, ४; ३, २, १.

a) = आग्नेय-कोण-। बस.। b) द्वस. अपि पूष. पुंवद्भावः उत्सं. (पा ६, ३, ४२)। c) कस. > उत्स.।  
पूर्व- = पूर्व-पद-। d) पस.। e) तु. पागम.। f) विप.। बस.।

पूर्वपदप्रकृतिस्वर-भाव- >  
 - विन्- -विनि पावा ६, २, ५२.  
 पूर्वपद-विकार- -राः पावा ६,  
 १, ९०.  
 पूर्वपदा(द-अ)तिशय- -ये पावा  
 २, १, ६९.  
 पूर्वपदा(द-अ)न्त- -न्ताः ऋप्रा  
 ९, १.  
 पूर्वपदान्त-ना- -गम् ऋप्रा  
 ५, ४५.  
 पूर्वपदा(द-अ)न्तोदात्तत्व- -त्वम्  
 पावा ६, १, ८४.  
 पूर्वपदा(द-अ)र्थ-हित- -त्व-  
 -त्वात् पावा ५, १, ९.  
 पूर्वपदो(द-उ)त्तरपद- -दयोः  
 पावा १, ४, २.  
 पूर्वपदो(द-उ)प(घा >)ध-  
 -घः ऋप्रा ९, २७.  
 पूर्वपद्य- -घः ऋप्रा १, ८०;  
 -घान् ऋप्रा ४, ५०; -घौ  
 ऋप्रा १३, ३०; उस् ८, १९.  
 पूर्वपद्या(घ-अ)न्त- -न्तः  
 ऋप्रा ५, ३१; -न्ते ऋप्रा ४,  
 ८४; उस् ६, ५.  
 पूर्वपर- -रयोः शौच ३, ४१; पा ६,  
 १, ८४; पावा १, ३, ९; -रौ अप्रा  
 ३, १, १७.  
 पूर्वपर-ग्रहण- -णम् पावा ६, १,  
 ८३.  
 पूर्वपर-प्राप्ति- -प्तेः पावा १, ४, २,  
 पूर्वपर-व्यवस्था(स्था-अ)र्थ-  
 -र्थम् पावा १, ४, ८०.  
 पूर्वपरा(र-अ)धिकार- -रात्  
 पावा ६, १, ८४.  
 पूर्व-परा(र-अ)वर-दक्षिणो(स-उ)

त्तरा(र-अ)परा(र-अ)वर- -राणि  
 पा १, १, ३४.  
 पूर्व-परिच्छेद- -दात् वाध १६, ३५.  
 पूर्व-पश्चाद्(द-उ)त्तर- -रे अप  
 ७०<sup>३</sup>, १८, ५.  
 पूर्व-पाद- -इम् शांश्रौ १५, १३,  
 १५; आपश्रौ ९, १९, १२××;  
 काठश्रौ; -दे वैश्रौ १०, १० :  
 ११; १२, १६; १४; हिश्रौ ४, ३,  
 १८; ७, २, २२; उस् ३, ३; -देन  
 हिश्रौ ७, २, २४; अत्र २, १<sup>२</sup>.  
 पूर्व-पान- -नाय वा १०, ३७.  
 पूर्व-पाप-कर्मन्- > ऋम्-  
 -र्मिणाम् काध २७८ : ६.  
 पूर्व-पीति- -त्वे आश्रौ ५, १५, २;  
 शांश्रौ ७, २०, ३; वैताश्रौ ३२,  
 ६; छुस् २, ११ : ३; निस् ७,  
 ४ : २२; वा १०, ३६<sup>६</sup>.  
 पूर्व-पुरुष- -पाः कौस् ६७, ३;  
 -पाणाम् वौट २, १, २९;  
 -पाम्याम् शंघ २५७; -वैः  
 वौश्रौ २४, १२ : ४.  
 पूर्वपुरुष-कृत- -न्तम् वौध ३, ६,  
 १९; विध ४८, १४.  
 १ पूर्व-पूर्व<sup>०</sup>-, -प्राधान्य- -न्यम्  
 वौध १, ६, ५०<sup>२</sup>.  
 २ पूर्व-पूर्व<sup>०</sup>- -र्वाणि हिश्रौ २, २,  
 १८<sup>१</sup>.  
 पूर्व-पूर्वतर- -रयोः पावा ५, ३, २२.  
 पूर्व-पूर्व(र्वक >)र्विका<sup>०</sup>- -०के अशां  
 ४, ३.  
 पूर्व-प्रकरण- -णम् वाश्रौ १, १, १,  
 १८.  
 पूर्व-प्रक्रान्त- -न्तम् शांश्रौ १४,  
 ४०, २४.

पूर्व-प्रज्ञा- -ज्ञा वा १४, ७.  
 १ पूर्व-प्रथम- -मयोः पावा ८, १,  
 १२.  
 २ पूर्व-प्रथम<sup>३</sup>- -मानि आपश्रौ २,  
 १९, ३<sup>१</sup>.  
 पूर्व-प्रयुक्त- -क्तम् लाश्रौ १०, ५, ६.  
 पूर्व-प्रोष्ठपदो(द-उ)त्तर-प्रोष्ठपद-  
 -दौ अप १, १, २.  
 पूर्व-फल- -लम् अप ३५, १, १७.  
 पूर्व-भाग- -नाः शैधि १४९; -गम्  
 आप्रिग्न २, ३, १ : १४; -ने अप  
 १, ७, १.  
 पूर्व-भागो(ग-उ)त्तर- -रे वैश्रौ  
 १, ३ : ४.  
 पूर्व-भाज्- -भाक् ऋप्रा १, ३२; १८,  
 ३३.  
 पूर्व-भाव- -वम्, -वस्य वा १, २.  
 पूर्व-भर्याडा- -स्यापन- -न्तम् शंघ  
 ३१०.  
 पूर्व-भात्र- -त्रस्य पावा १, १, ५७.  
 पूर्व-भारि(र >)गी<sup>१</sup>- -गीम् शांश्रौ  
 ४, १५, २३; कौट ५, ६, ६; कप्र  
 ३, १, ६; -ण्याः शांश्रु ५, ९, ६.  
 पूर्व-भार्ग- -र्गेण जैश्रौका २३१.  
 पूर्व-मुख- -खः अप ७०<sup>३</sup>, ६, ७.  
 पूर्व-मृत- -ताः वैट ५, १५ : ७.  
 पूर्व-यज्ञ- -ज्ञम् वाधुश्रौ ३, २८ : १.  
 पूर्व-युग- > णीय- -यम् हृदे ४,  
 ३६.  
 पूर्व-रात्र- -त्रे आपश्रौ ६, ४, १०;  
 भाश्रौ ६, ९, ८; कौस्.  
 पूर्वरात्र- -मप्या(घ-अ)पर-  
 रात्र- -त्रेपु काश्रौ २३, ३, ९.  
 पूर्व-रूप- -पत्य शौच १, ५०;  
 -पाणि ऋप्रा २, ३३.

a) विप. । वस. । b) विप., नाप. । त्वार्थे वा तत्रभवार्थे वा चत् प्र. । c) द्विभावे क्त. अतिदेशः-  
 (यक्त. पावा ८, १, १२; पा ८, १, ११) । d) सप्र. पूर्वपूर्वाणि <> पूर्वप्रथमानि इति पामे. । e) = पूर्वपादा-  
 नक्षत्र- । f) = पतिमता-न्तरी- । उस्. उप. <√म ।

पूर्व-लक्षण-लक्षित- -तः काशु ७,  
१०.  
पूर्व-लिङ्ग-त्व- -त्वात् पावा २, ४,  
१२.  
पूर्व-लुप्त-कारण<sup>१</sup>- -णानि अप्रा १,  
१, १५;  
पूर्व-वचन- -नम् उत्सू ४, ११;  
पावा २, २, ३०××.  
पूर्व-वत् काश्रौ २, ५, २; ६, २३××;  
आपश्रौ; पा १, ३, ६२; मीसू ४,  
४, १४<sup>०</sup>; १२, ४, १४<sup>०</sup>.  
पूर्ववत्-प्रमा(ण>)णा<sup>१</sup>- -णाम्  
आपश्रौ १७, २६, १४; हिश्रौ  
२४, १, ३.  
पूर्व-वत्- -वति मीसू ८, ३, २८;  
-वन्तः मीसू १, ४, १७; -वान्  
शुप्रा २, ७; मीसू १०, ३, ४.  
पूर्ववती- -न्याम् आपव २,  
१३, ३; द्विष ११, ३.  
पूर्ववत्-त्व- -त्वम् मीसू ७, ४,  
१; -त्वात् मीसू २, ३, १९<sup>०</sup>; ४,  
२३; ३, २, ३२<sup>१</sup>××.  
पूर्व-वर्ण- -र्णः शैशि २७१; -र्णयोः  
नाशि २, २, ८.  
पूर्व-वर्ष- -र्षेण अप ५९, १, १३; १९.  
पूर्व-वसन्त-ज्योतिष्टोम- -मस्य  
वौश्रौ २८, १२: १८.  
पूर्व-वह- -वहः वाघूश्रौ ४, ४७:  
२; आपमं १, ३, ४.  
पूर्व-वाद- -दः विष ८, १०.  
पूर्व-वाह- -वाद् आपश्रौ ५, १४,  
१७; १८; वौश्रौ २, १७: १६;  
हिश्रौ ३, ४, ३५; -वाहम् वौश्रौ

२, २२: ७; २४, १४: ६; वैश्रौ  
१, १२: २०.  
पूर्व-विज्ञान- -नात् पावा १, १, ५७.  
पूर्व-विधान<sup>१</sup>- -नम् ऋप्रा ११, २२;  
४४.  
पूर्व-विधि- -धौ पा १, १, ५७;  
पावा ६, १, ८४.  
पूर्व-विप्रतिपिद्ध- -द्धम् पावा २, ४,  
१२; ८५××.  
पूर्व-विप्रतिषेध- -धेन पावा ६, २,  
१३०; ४, ४××.  
पूर्व-वृत्- -तस्य शंघ ३०३.  
पूर्व-वृष्टि- -ष्ट्याम् अप ५९, १, १७.  
पूर्व-वेदि- -दिम् वैश्रौ १, ९: १५.  
पूर्व-व्रत- -तम् वैश्रौ १२, २४: ३.  
पूर्व-शस(:) अप्रा २, ४, ३.  
पूर्व-शान्ति- -न्तिम् वैश्रौ १३, १५:  
७.  
पूर्व-शास्त्र- -स्त्रे तैप्रा १९, ५<sup>२</sup>.  
पूर्व-शेष- -षात् काश्रौ १, ६, २;  
-धौ काश्रौ ८, १, १७.  
पूर्वशेष-दर्शन- -नात् पावा १,  
२, ७२.  
पूर्व-शेष- -षे पावा ७, ४, ६१.  
पूर्व-संस्था- -स्थ्याः वौश्रौ २४, १०:  
१६; १७.  
पूर्व-संस्थि(त>)ता- -ताम् कप्र ३,  
१, ५.  
पूर्व-सक्य- -पा ५, ४, ९८.  
पूर्व-सक्यि- -क्यिना वैश्रौ २०, ३८:  
३.  
पूर्व-संछिन्न- -ञ्जाः<sup>१</sup> वौपि ३, ३, १.  
पूर्व-संचिता(त-अ)शन- -नम् वैध

३, ५, ११.  
पूर्व-संजात- -तम् वैश्रौ २, १०: १९.  
पूर्व-संज्ञा-प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा १,  
२, २७.  
पूर्व-सद्- -सद्भ्यः माश्रौ २, ३,  
७, ३; जैश्रौ ८: १५; द्राश्रौ ४,  
४, १३.  
पूर्व-सदृश-समो(म-ऊ)नार्थ-कलह-  
निपुण-मिश्र-इलक्षण- -क्षेणः पा  
२, १, ३१.  
पूर्व-संघे<sup>१</sup> शैशि २३९.  
पूर्व-संघ्या- -ध्याम् वाघ २६, ३.  
पूर्व-समय<sup>१</sup>- -येषु जैश्रौ २, ५: २०.  
पूर्व-समुद्र- -द्राः अप ५६, १, ३.  
पूर्व-संभूत- -तः वृदे ४, १३.  
पूर्व-संभृत- -तयोः विष २२, ५३.  
पूर्व-सर- -पा ३, २, १९.  
पूर्व-सवर्ण- -र्णः पा ६, १, १०२.  
पूर्वसवर्ण<sup>०</sup> पा ७, १, ३९; पावा  
१, २, ६२.  
पूर्वसवर्ण-गुण<sup>०</sup> पावा ६, ३, ६७.  
पूर्वसवर्ण-पूर्वत्व<sup>०</sup> पावा ६, १,  
१०६.  
पूर्वसवर्ण-प्रतिषेध- -धः पावा ७,  
१, २५.  
पूर्वसवर्णा(र्ण-अ)प्रसिद्धि- -द्धिः  
पावा ६, ३, ६७.  
पूर्व-स-स्थान<sup>१</sup>- -नः शौच २, १५;  
-नम् ऋप्रा १४, ३०.  
पूर्व-सुरक्षित- -तान् वैश्रौ १६, २८:  
४.  
पूर्व-सू<sup>१</sup>- -सूभ्याम् शांश्रौ १, ६,  
११<sup>१</sup>.

a) विप. । कस. > वस. । b) पूर्ववत्त्वात् इति जीसं. । c) पूर्ववत्त्वात् इति आन. । d) विप. ।  
वस. । e) पूर्वत्वात् इति जीसं. प्रसू. । f) पूर्ववत् इति जीसं. । g) नाप. । उस. उप. विच् प्र. । h) कस. ।  
२). \*अम् इति संस्कृतेः टि. । j) \*धौ इति संस्कृतेः टि. ? । k) विप. > नाप. (पूर्वप्रोष्ठपदादिनक्षत्र-). । वस. उप.  
= आख्या- । l) वस. उप. = समान-स्थान- । पर-संस्थान- इत्यत्र उप. यनि. शोधः । m) विप. । उस. उप.  
किप् प्र. । n) पूर्ववत्सूभ्याम् इति BC. ।

पूर्व-सूक्त- -कम् वृद्धे ३, १२७;  
-कानि अत्र १८, १.

पूर्व-सूक्त-द्वय- -येन अत्र ५, ३.

पूर्व-सूत्र- -त्रे पापत्रा ८, १.

पूर्वसूत्र-निर्देश- -नाः पात्रा ४,  
१, १४.

पूर्व-सेवा- -वा अप ३६, २४, २;  
बोध ४, ८, १८.

पूर्वसेवा(वा-अ)र्थ- -र्थः अप ३६,  
२४, १.

पूर्व-स्य- -स्यः याशि २, ५८.

पूर्व-स्वर- -रः तैत्रा १५, १; -रम्  
शौच १, १०४; माशि ६, ४;  
-रत्स्य शैशि ११२.

पूर्व-स्वरूप- -पम् ऋषा ६, ४२.

पूर्व-हृत्ति<sup>०</sup>- -तौ आश्रौ ५, २०, ६<sup>b</sup>;  
शाश्रौ ३, २०, ४<sup>b</sup> वा ५, २८<sup>क</sup>.

पूर्व-होम- -मान् आपश्रौ २०, ५,  
९; ११, ३; हिश्रौ १४, १, ४४.

पूर्वा(र्व-अ)क्षर- -रत्स्य याशि २,  
१५.

पूर्वा(र्व-अ)सि<sup>०</sup>- -मिना आमिष्ट ३,  
५, २; १६; वौषि १, २; १९;

-निन्म् वौश्रौ ४, ११; २५;  
१८, ८; १०××; आमिष्ट ३,  
१०, ३; ९; -मेः कैश्रौका १९८;

-श्रौ आमिष्ट २, ७; ३; ६;  
पूर्वासि-वहन<sup>०</sup>- -नम् काश्रौ १५,  
६, १४.

पूर्वासि-वाह<sup>०</sup>- -हः काश्रौ १५,  
७, २१; -हौ काश्रौ १५, ९, ११.

पूर्वासि-सहित<sup>०</sup>- -ता- -वान्  
काश्रौ १५, ७, १३.

पूर्वा(र्व-अ)प्र<sup>०</sup>- -ग्रान् शंष २०९;  
-श्रौ वैष २, २, १.

पूर्वा(र्व-आ)वार-सनिष्- -निषम्  
वैश्रौ १४, २; ३.

पूर्वा(र्व-अ)ङ्- -ङ्गम् नाशि २, २,  
१२; १३; १५; -ङ्गत्स्य शैशि  
१९०; याशि २, २४; -ङ्गै शैशि  
१८८; नाशि ११, ७.

पूर्वा(र्व-अ)ङ्कार- -रान् नाश्रौ ५, २,  
१२, २६.

पूर्वा(र्व-आ)त्राय<sup>०</sup>- -र्याः अप १, ७,  
३; -र्यान् शांश्रु ६, १, १.

पूर्वा(र्व-अ)तिथि<sup>०</sup>- -थीनाम्<sup>०</sup> वैष  
४, ५, ५.

पूर्वातिथि- -थ्य आश्रौ १२,  
१४, १; वौश्रौप्र ३० : ४; वैष  
४, ५, ५.

पूर्वातिथि-न्त् वौश्रौप्र ३० : ४;  
वैष ४, ५, ५.

पूर्वा-त्रिष्टुप्<sup>०</sup>- -ष्टुप् अत्र १५,  
११.

पूर्वा(र्व-आ)दि- -दिषु पात्रा २, १,  
३१; -दीनाम् पात्रा १, १, २९;  
६, ४, १३५.

पूर्वादि-दिश<sup>०</sup>- -दिषु अप २५,  
१, ४.

पूर्वा(र्व-अ)धर (> पौर्वाधर्यं- पा)  
पाग ५, १, १२४.

पूर्वा(र्व-अ)ध्याय- -यम् निन्  
७, १२; ९; ८, १; १४.

पूर्वा(र्व-अ)वृष्टि-त्व- -त्वात् बौष  
२, १, १९.

पूर्वा(र्व-अ)न्त- -न्तः पात्रा ६, १,  
१३२; -न्ताः काश्रौ १, ३, ९;  
-न्ते पात्रा १, १, ४७; ५१××.

पूर्वान्त-लक्षण- -गम् द्राश्रौ १,  
१, ३; ताश्रौ १, १, ३.

पूर्वान्त-सत्यान<sup>०</sup>- -नः तैत्रा २,  
४८.

२पूर्वा(र्व-अ)न्त<sup>०</sup>- -न्तम् वैष्ट ३  
७; १८.

पूर्वा(र्व-अ)पत्, रा<sup>०</sup>- पा २, ४, १२;  
-पत्, रा<sup>०</sup> वौश्रौ १८, १२; ४;

माश्रौ ६, १६, २६; नाश्रौ;  
-रयोः आपश्रु १२, ८; वौश्रु; -राः  
काश्रौ १६, २, ४; आपश्रौ; -रान्  
काश्रु ४, २३; माश्रु; -रान्याम्  
काश्रौ २२, १, ३३; ताश्रौ  
८, १, १९; -रासु अप ६१, १,  
९; -रे काश्रौ १६, ७, २५; १७,  
५, १५; वौश्रौ; -रौ काश्रौ १५,  
४, २६; आपश्रौ १५, १४, ८;  
माश्रौ.

पौर्वापर्यं- -र्यम् वैश्रौ १५,  
११; २; पात्रा १, ४, १०९;  
नीत् १०, ३, २७; -र्यं नीत् ६,  
५, ५४.

पौर्वापर्य-वोद्धन- -वात्  
ताश्रौ १०, ९, ३.

पौर्वापर्य-भाव- -वात्  
पात्रा २, ४, ३५.

पूर्वापर-नात्र- -त्रेष्टु कौष्ट ३,  
११, ५<sup>१</sup>.

पूर्वापर-रात्रि- -श्रौ शांश्रु ४, ११,  
१९<sup>१</sup>.

पूर्वापरा(र्व-अ)तिज्ञानव<sup>०</sup>- -तौ  
अत्र ५, ३.

पूर्वापरा(र्व-अ)पच्छेद- -दे  
आपश्रौ १४, २६, ८; हिश्रौ १५,  
६, ४२.

पूर्वापरा(र्व-अ)भाव- -वात् पात्रा  
१, ४, १०९.

a) वैष १ द्र. । b) पामि. वैष १, २०७९ । द्र. । c) = आवात्तप्यामि. । d) = अन्तम्. । e) वैष

२, ३ खं. द्र. । f) विप. । वस. । g) व्यप. । h) बहु. <पौर्वातिथि- । i) उप. = उमान-स्थान- । j) उपा.  
श्रिष्टु <> श्रौ इति पामि. ।

पूर्वापरी✓भू>पूर्वापरी-भूत-  
-तः वृद्धे १, ४४; -तम् या १, १.  
पूर्वा(र्व-अ)पर-प्रथम-चरम-जघन्य-  
समान-मध्य-मध्यम-वीर- -राः  
पा २, १, ५८.  
पूर्वा(र्व-अ)परा(र-अ)धरो(र-उ)त्तर-  
-रम् पा २, २, १.  
पूर्वा(र्व-अ)पहरण<sup>१</sup>, हाण<sup>१</sup>]->णा-  
पा, पाग ४, १, ४<sup>b</sup>.  
पूर्वापिहाण->णा<sup>d</sup>-  
पूर्वा(र्व-अ)पूर्व-समुच्छ्रित(>)ता-  
-ता अप २५, १, १२; ३०, ५, ९.  
पूर्वा-फाल्गुनि-संज्ञक<sup>c</sup>- -कम् अशां  
२, ४.  
पूर्वा-भाद्रप(द>)दा<sup>d</sup>- -दाम् अशां  
५, ४.  
पूर्वा(र्व-अ)भाव- -वे विध २४, ३९.  
!पूर्वाम्यर्थ- -थेन निस् ६, ६: २६.  
पूर्वा(र्व-अ)स्नान- -नात् वाश्रौ १,  
१, १, १८.  
पूर्वा(र्व-अ)रम्भिन्- -म्भिणम्  
आश्रौ १२, ८, १५.  
पूर्वा(र्व-अ)धे- -धम् पावा ६, १,  
१३२.  
पूर्वा(र्व-अ)र्थ- -र्थम् पावा ७, १,  
८६.  
पूर्वा(र्व-अ)धे<sup>e</sup>- -धे: वौश्रौ १०,  
५४: २; १५, ३५: २; -धम्  
शाश्रौ १७, १३, १; काश्रौ ८, ८,  
७; १७, १२, २०<sup>f</sup>; वौश्रौ १, ५:  
६; माश्रौ: -धस्य वाश्रौ ३, २, ५,  
५७; -धात् शाश्रौ ४, २१, ८;  
काश्रौ: -धे शाश्रौ ४, २१, ८;  
काश्रौ ४, ४, १४××; आपश्रौ ६,  
१०, ११<sup>g</sup>; वौश्रौ: -धेन माश्रौ

२, ५, ५, १७.  
पूर्वाधे-मध्य- -धे वौश्रौ १७,  
३९: २२.  
पूर्वाधे(धे-अ)र्ध- -धर्वः शुश्र १,  
५१४.  
पूर्वाधे, ध्या- -ध्यम् काश्रौ ७,  
१, ३०; वौश्रौ १, ८: ९; -ध्याः  
वौश्रौ १२, ८: ४; -ध्यात् काश्रौ  
८, ३, ७; ११; १६, ८, ९; हिश्रौ  
७, ४, ४०; -ध्यायाम् भाश्रौ ८,  
१९, ११; हिश्रौ ५, ४, ७५.  
पूर्वा(र्व-अ)लाम- -मे आश्रौ ३,  
१४, १५; वैगृ ६, १२: ६;  
भेऽ-मे काश्रौ २, ८, १; २५,  
१२, २०.  
पूर्वा(र्व-अ)वृत्- -वृता जैश्रौका  
२००.  
पूर्वा(र्व-अ)शौच- -चेन वैगृ ७, ५: ७.  
पूर्वाशौच-व्यपगम- -मे विध  
२२, ३५.  
पूर्वा(र्व-अ)पा(द>)दा<sup>d</sup>- -दा  
अप १, ३, १; १३, १; अशां १०,  
३; -दा: अप १, १; २; ७, १०;  
५७, ३, १.  
पूर्वापादे(दा-इ)ति-संज्ञक-  
-कम् अशां ४, ३.  
पूर्वा(र्व-अ)हुति- -ति: आपृ ७,  
२१; -तौ काश्रौ २५, ३, १;  
-त्या: जैश्रौका ३२.  
पूर्वाहुति-स्थान->नीय- -यम्  
वैश्रौ २०, १७: ११.  
पूर्वा(र्व-अ)ह्- -हः वाधुश्रौ ४,  
२८: १; मागृ १, १२: ५<sup>h</sup>;  
गोश्र १, ५, १४; -हम् पागृ ३,  
४, ८; -हस्य कौसृ २२, २<sup>i</sup>;

-हे आश्रौ ४, ७, ४; ८, १७;  
शाश्रौ; या ८, ९.  
पौर्वाहिक- पा ४, ३, २४.  
पौर्वाहिकी- -कीभ्याम्  
आपश्रौ ११, ४, १; ५, ८; १६,  
२१, २××; भाश्रौ; -क्या काश्रौ  
८, ३, ६; १६; -क्यौ: हिश्रौ १२,  
१, १.  
पौर्वाहिनया (की-आ)  
पराहिक्य(की-अ)न्तर- -रे  
काश्रौ १७, ७, ३.  
पूर्वाहक- पा ४, ३, २८.  
पूर्वाह-कर्मन्- -र्मणा कप्र ३, ४,  
१३.  
पूर्वाह, ह्-तन- पा ४, ३, २४.  
पूर्वाह-मध्यन्दिना(न-अ)पराह-  
-हान् गौध ९, ४८; -हेषु गोश्र  
४, ६, १०; द्रागृ ४, १, २२.  
पूर्वाहा(ह-अ)पराह- -हयो:  
लाश्रौ ९, १२, ४.  
पूर्वाहिक, का<sup>l</sup>- -का: वौश्रौ २६,  
३२: १५; -के वौश्रौ ९, ६:  
२१<sup>j</sup>; १२: १७<sup>j</sup>; २६, २७: ५; ७.  
पूर्वाहिकी- -की: वैताश्रौ  
२९, ४; -कीभ्याम् माश्रौ ६, २,  
१, २; ९××; -कीम् माश्रौ २, २,  
१, ५१; ५५; ६, १, ५, २८; वाश्रौ  
२, १, ४, ३२; -क्यो: वाश्रौ २,  
२, ५, १७; -क्यौ वैश्रौ १४, ४:  
१८.  
पूर्विण- पा ४, ४, १३३; -णेभि:  
आश्रौ २, ७, ९<sup>k</sup>.  
पूर्विन्- पा ५, २, ८६.  
पूर्वे-द्युस् (: ) आश्रौ २, १५, १; १८,  
२; ९, २, १४; शाश्रौ.

a) तु. पाका. । b) पूर्वापिहाणा- इति पासि. । c) विप. । वस. पूष. =नक्षत्र- । d) =नक्षत्र- ।

e) वैप १ द्र. । f) धे इति चौसं. । g) पुं इति पाठः? यनि. शोधः (तु. भाष्यम्) । h) तस. (पा २,  
२, १) । i) विप. । ठन् प्र. उसं. (पा. ४, ३, ११) । j) पौर्वाः इति मूको. । k) पामे. वैप १, २०-३४ d द्र. ।

पूर्वेद्युः-काल<sup>a</sup>- लम् वीश्रौ २०,  
१ : ४२.  
पूर्वेद्युः-कृत- ते हिश्रौ १, ४,  
४२.  
पूर्वो(र्व-उ)क्त, क्ता- -क्तः वौध २,  
२, ६८; -क्तम् वीश्रौ २९, २ :  
७; १३××, वैग्य; -क्तस्य पावा  
२, १, १०; -क्ताः साश्र २,  
१-९; -क्तानाम् वौध १, ५,  
४२; काथ २७८ : २; -क्तम्  
वैग्य १, ७ : ७; ५, ६ : ६; -क्तेन  
आमिग्य २, ६, ४ : २६; ३, १२,  
१ : ६; वैग्य.  
पूर्वोक्त-चरु- -रुभिः वैग्य ४,  
१४ : ११.  
पूर्वोक्त-त्व- -त्वात् आपश्रौ  
२४, ४, १५; मीसू ५, २, १७.  
पूर्वोक्त-देवता- >°त्य- -त्यम्  
अश्र ६, ४६.  
पूर्वोक्त-यन्त्र-शुद्ध- -द्वेभ्यः  
वौध ४, ५, ३२.  
पूर्वोक्त-विधि- धिना वैध २,  
१, ७.  
१ पूर्वो(र्व-उ)त्तर, रा<sup>b</sup>- -रस्मिन् वैश्रौ  
१४, ८ : ८; -राम् अष ५९,  
१, १३; -रे काश्रौ ८, ५, १७;  
अष ६०, १, २.  
पूर्वोत्तर-तसः(ः) जैग्य २, ९ : ९;  
कौसू १३७, ३६.  
२ पूर्वो(र्व-उ)त्तर, रा<sup>c</sup>- -रयोः अष  
१, ४८, ७; शुप्रा १, १४५; पावा  
१, १, ६७; -रे शाश्रौ ७, २५,

७; -रेषु कौग्य १, २०, ४<sup>d</sup>.  
पूर्वोत्तर-कृत- -तम् ऋप्रा १०,  
५; उसू ३, ६.  
पूर्वोत्तर-पद<sup>e</sup>- -दयोः पावा ५,  
३, ८३.  
?पूर्वोत्तर-पुनर्वसु<sup>f</sup>- -सू वैग्य २,  
५ : १.  
पूर्वोत्तर-प्ल(व>)वा<sup>g</sup>- -वा  
अष ३०, १, ३.  
पूर्वोत्तर-विरोध- -धात् वौद्य  
५, ११.  
पूर्वोत्तर-स्वर-सरूपता- -ताम्  
ऋप्रा ६, ५३.  
पूर्वो(र्व-उ)त्थान- -तम् विध २८,  
१३.  
पूर्वो(र्व-उ)त्थायिन्- -यी काग्य १,  
११; आपध १, ४, २८; वौध.  
पूर्वो(र्व-उ)त्थित- -तान् नाशि १,  
५, १८.  
पूर्वो(र्व-उ)त्पति(त>)ता- -ताः  
वाधूश्रौ ४, ६९ : ५.  
पूर्वो(र्व-उ)त्पन्न- -न्नानाम् या १,  
१४.  
पूर्वो(र्व-उ)त्सष्ट- -ष्टः माश्रौ ५, २,  
१०, ४०.  
पूर्वो(र्व-उ)त्प्रक्रम, मा<sup>h</sup>- -मम् द्राग्य  
१, २, ११; -माः गोग्य ४, २,  
१६; २२.  
पूर्वो(र्व-उ)त्पदेश- -शे पाप्रवा ५,  
३; ५.  
पूर्वो(र्व-उ)त्पलिस- -से द्राग्य ३, २, २.  
पूर्वो(र्व-उ)त्पि(त>)ता<sup>i</sup>- -ताम्

ऋग्य २, १०, ९५.  
पूर्व्य, र्व्या<sup>j</sup>- पा ४, ४, १३३; -र्व्यः  
आश्रौ ८, १, १४; शाश्रौ १०,  
८, ५; वीश्रौ; -र्ण्व्यम् आश्रौ  
४, ९, ४; आपश्रौ १२, १५, ६;  
माश्रौ; लाश्रौ २, ९, ९; -र्ण्व्या  
माग्य १, १०, १७; अप्राय ६, ९;  
-र्ण्व्याः<sup>k</sup> आश्रौ ४, ७, ४; शाश्रौ  
५, १०, ३२; -र्व्याय शाश्रौ ५,  
११, ७<sup>l</sup>; -र्ण्व्यासः वीश्रौ १५,  
२ : ६; हिश्रौ १४, ३, ४०;  
शुप्रा ४, ७८; -र्व्येण आश्रौ ९,  
११, १४; ऋप्रा ६, २; -र्ण्व्यैभिः<sup>m</sup>  
आश्रौ ६, १०, १९; आग्य ४,  
४, ६; -र्ण्व्यैः<sup>n</sup> वीश्रौ ३, ११;  
२२; आमिग्य ३, १, १ : ८; ३५;  
वौपि.  
?पूर्वधीयते<sup>o</sup> आश्रौ ८, १३, ३१.  
?पूर्वा आयुषे, पूर्वायुषे आमिग्य १,  
३, २ : १९.  
पूर्वी- पूर्व- द्र.  
✓पूर्व पाधा. श्वा. तुरा.<sup>p</sup> पर. संघाते.  
पूर्व<sup>q</sup>- पाग २, ४, ३१<sup>r</sup>; ४, १,  
४१<sup>r</sup>; ५, ४, २९<sup>r</sup>; -लान् माग्य  
१, २३, १६.  
पूर्व(ल>)ली- पा ४, १, ४१.  
पूर्व-क- पाग ५, ४, २९.  
पूर्वाक- (>पौलाक- पा.) पाग ४,  
३, १३९.  
पूर्वास- (>पौलास- पा.) पाग ४,  
२, ७५.  
पूर्वास-कुरण्ड- पाग २, २, ३१<sup>r</sup>७.

a) विप. । वस. । b) = ईशान-कोण. । वस. । c) द्रस. । d) पूर्वोत्तराभिधेषु पदसु नक्षत्रेष्विति भावः । e) तु. पाका. पासि. । f) पूष. ? इति कृत्वा समासः ? । उत्तरेणान्वितं पूष. इति C. । g) उप. < ✓वस (निवासे) । h) वैप १ निर्दिष्टानां समावेशः द्र. । i) पाभे. पृ १६१७ व द्र. । j) पाभे. वैप १, २०७८ C द्र. । k) पाभे. वैप १, २०३४ C द्र. । l) पाभे. वैप १, २०३४ d द्र. । m) पाठः ? पूर्वम् अधीयते इति शोधः । n) ✓पु, पूष इति [पक्षे] BFG. । o) = घास-भार- । p) तु. पागम. । q) कुरण्डस्थल-पूलास- इति तत्रैव शाकटायनः, 'सक-कुरण्ड- इति भारडा., 'सक-करण्ड- इति पाका., 'स-कारण्ड इति पासि. ।



पूल्य<sup>a</sup>- -ल्यान् कौस् १०१, २<sup>b</sup>;  
-ल्यानि कौस् २६, २××

√पृप् पाधा. भ्वा. पर. वृद्धौ.

पूपन्<sup>a</sup>- पाठ १, १५९; पा ६, ४,  
१२; -फणम् आश्रौ २, ११,  
४; शांश्रौ १४, ७१, ४; वाश्रौ;  
या ४, २५; ६, ४; -फण  
शांश्रौ ६, ११, १; माश्रौ ५, २,  
७, १७; -फणम् आश्रौ २,  
१६, ११; ३, ७, ८; शांश्रौ;  
आपमं १, ११, ६०; आमिष्ट १,  
५, ३: १०; ३, ९, ३: ७;  
कागृ २५, २२०; वीगृ १, ७, ४४<sup>c</sup>;  
वीपि २, ७, ६०; भागृ १, १५:  
१३०; जैगृ १, २१: १२०; अगृ  
१४, २१<sup>d</sup>; या १२, १७०; -फ  
आश्रौ २, ५, २; १२××;  
शांश्रौ; आपमं १, २, ८<sup>e</sup>;  
पागृ १, ४, १६०; या ५, २८;  
६, ६××; वेज्यो ३४; -णः  
शांश्रौ ४, ७, ५<sup>f</sup>; १६, ३, २९;  
३०<sup>f</sup>; काश्रौ; -णा वीश्रौ १०,  
२: १०<sup>f</sup>; या ७, १०; -ण  
शांश्रौ ३, ४, ९; १५, १४, ४;  
१६, १, १३; काश्रौ.

२पौष- > ०वी<sup>g</sup>- -पी  
निस् ७, ४: ६.

पौष्ण<sup>a</sup>- -णः काश्रौ ५, १,  
४; १२, ३××; आपश्रौ; -णम्  
काश्रौ २०, १, २४; २५, २, ८;  
आपश्रौ; -णस्य शांश्रौ ६, १०,  
४; कौगृ ३, ६, २; शांगृ; -णाः

आपश्रौ २०, १४, ७; वीश्रौ २४,  
३८: ३; हिश्रौ १४, ३, १६;  
-णान् भाश्रौ ८, ३, २; -णानाम्  
वीश्रौ १५, ३१: १९; -णानि  
वृदे ५, ११८; या ७, २३; -ण  
अप ३१, ५, २; विध ७८, ३३;  
-णौ वृदे ६, ४३; ७, ८.

पौष्णी- -णी आश्रौ  
१०, ६, ५; वैताश्रौ ३६, १७;  
वृदे ६, ७१; साअ २, ९४४<sup>h</sup>;  
-णीः वृदे ५, ११४; -ण्यः  
ऋअ २, ६, ४८; ८, ४××;  
-ण्याम् आश्रौ ९, ४, ६; लाश्रौ  
९, ९, ९; -ण्यौ वृदे ६, ७४;  
शुअ ४, २७.

पौष्ण-सावित्र-सौम्य-  
-म्याः वृदे ४, १२५.

पौष्णा(ष्ण-अ)न्त<sup>h</sup>-  
-न्तान् वैताश्रौ ८, २१; ९, २६;  
-न्तानि शांश्रौ ३, १४, ३; १८,  
२; आपश्रौ ८, २, ३.  
पूप(न् >)ण्वत्- -वते आपश्रौ  
१२, ४, ६; माश्रौ २, ३, २, २;  
वैश्रौ १५, ४: ५; हिश्रौ ८, १,  
५०.

पूपण्वती- -तीः हिश्रौ १५,  
५, १९.  
पूप-द्वैवत्य, त्या<sup>h</sup>- -त्या अप १,  
४, ७; -त्ये अप ३३, ४, १.  
पूपा( ष-अ )निन्-वायु- -युषु  
शुप्रा २, ५५<sup>f</sup>.

पूप- (> पूषी- पा.) पाग ४, १, ४१.

√पृ,पृ<sup>a</sup> पाधा. जु. क्वा. पर. पालन-  
पूरणयोः; जुरा. पर. पूरणे,  
फृषि आपश्रौ ६, २२, १;  
अप ४८, १२; निघ ३, १९; या  
४, ३<sup>h</sup>; ऋप्रा ४, ५५.

फृषिपति आपश्रौ ७, ४, ५<sup>k</sup>;  
आश्रौ ७, ३, १२<sup>k</sup>; हिश्रौ ४, १,  
६१<sup>k</sup>; अप ४८, १४; या ५,  
२४; फृषिपति आश्रौ ४, १२,  
२<sup>l</sup>; आपश्रौ ४, ९, ३; भाश्रौ;  
फृषिपृताम् वीश्रौ १४, १४:  
३५; द्राश्रौ ११, ४, ९; लाश्रौ  
४, ४, ८; अप्राय ४, १; फृषिपृहि  
शांश्रौ ६, १२, ३<sup>l</sup>; वीश्रौ ६,  
२९: ७<sup>l</sup>; २५, १९: ४<sup>l</sup>; वैश्रौ  
१४, १२: ५<sup>l</sup>; जैश्रौ १३: ६<sup>l</sup>;  
कौगृ १, १२, ६<sup>l</sup>; शांगृ १, १९,  
६; पिपृतात् आश्रौ ४, १२, २;  
फृषिपृतम् शांश्रौ ५, १९, ८;  
पिपृत्, > ता आश्रौ ५, ३, १५<sup>l</sup>;  
शांश्रौ; वाश्रौ १, ३, ३, १<sup>l</sup>; जैश्रौ  
१३: २६<sup>l</sup>.

फृषणाति अप ४८, १३; १४;  
निघ ३, २०; पृणन्ति या १, १७;  
अप्रा १, १, १४; पृणात् शांश्रौ  
१२, १५, २<sup>l</sup>.

अपूरि, अपूरिष्ट पा ३, १, ६१;  
परिन् या ६, २०<sup>l</sup>; परि ऋप्रा  
५, ५८<sup>l</sup>.

पूर्यते आश्रौ ११, २, १७; ३,  
७××; आपश्रौ; या ५, १८;  
पूर्यन्ते अप ७१, १४, ५;

a) वैप १ द्र. । b) अर्थः? । c) पाभे. वैप १, २०८० । द्र. । d) पूषम् इति पाठः? यनि. शोधः  
(तु. वैप १, २०८० n) । e) पाभे. वैप १, २०८० k द्र. । f) पाभे. वैप १, २०८१ a द्र. । g) [=पूपदेवत्या-] <sup>h</sup>  
अच्- । अणि टि-लोपः उंसं. (पा ६, ४, १७३ । तु. तां १८, १, १५) । h) विप. । वस. । i) या १, २०;  
२, ३; २२ शौच २, ७८ पा ६, ४, १०२; ७, ३, ८०; ४, १३; ७७; ८, २, ४४ परामृष्टः द्र. । j) वैप १, २०८३ f द्र. ।  
k) पाभे. वैप १, २०५६ i द्र. । l) पाभे. वैप १, २०८३ n द्र. । m) सपा. आपमं १, १२, ८ हिश्रु १, २५, १  
विभर्तु इति पाभे. । n) सपा. हिश्रौ १, ७, ४०; पिप्रीत् इति पाभे. ।

पूर्यताम् आगृ २, २, ३;  
पागृ २, १६, ३; ३, ४, ४<sup>३</sup>; भागृ  
२, १४ : १६; वैगृ ४, ८ : ४;  
अपूर्यत वाधूश्रौ ४, ८६:१; ९; १७;  
पूर्यत शाश्रौ १३, १, ७; माश्रौ  
६, १, ४, ३१; हिश्रौ २१, २, ६;  
पूर्यन् लश्रौ ९, २, ४.  
पूरिता आपश्रौ २४, २, २२;  
माश्रौ १, १, ६; अपूरि वाधूश्रौ ४,  
८६ : १०; १७.  
पारयते वाधूश्रौ ३, ४३ : ७;  
पारयति अप ४८, १४; पार-  
यन्ति हिपि १ : १०; पारि-  
यन्तु<sup>१</sup> वौश्रौ १८, १७:२१; वाश्रौ  
३, १, २, १; आपमं २, २१,  
१७; कागृ २६, २; वागृ १५, १;  
पारय, >या आश्रौ २, १०,  
४; शाश्रौ ५, ५, २; आपश्रौ.  
पारयिष्यति माशि १५, ३; १०.  
पूरयति काश्रौ २६, ७, ३२;  
आपश्रौ १५, १४, ११×४;  
काश्रौसं; या २, ३; ३, २०;  
पूरयन्ति आश्रौ ६, १०, ५;  
शाश्रौ १३, १५, ११; काश्रौ;  
पूर्यायै वौश्रौ १८, २९ : ७;  
पूरय या ४, ३; पूरयत शाश्रौ ८,  
८, ११; पूरयेत वैश्रौ १८, १६ :  
८२; ८४; छुम्; या १४, ३०<sup>०</sup>;  
पूरयेयुः आश्रौ १२, ७, १४.  
पीपरत् अप्राय ६, ९<sup>१</sup>; अप  
३७, ४, २<sup>१</sup>; ४८, १२; अत्र  
१९, ४०; निघ ३, १९; पंजपी-  
परः आपश्रौ १५, १२, ७<sup>२</sup>;

काश्रौसं ३५ : ८; ९; वौश्रौ.  
पंप्रि<sup>१</sup>- अयः वौश्रौ १८, १७ :  
२१; वाश्रौ ३, १, २, १; आपमं;  
-प्रिम् आश्रौ ३, ७, ७; आपश्रौ  
२२, २५, १२; वौश्रौ १८, ५ :  
११; हिश्रौ २३, ४, ७.  
पंप्रि-तम- -मम् वौश्रौ १, ४ :  
३०; ५ : १०.  
पर्व<sup>१</sup>- -र्वभिः ऋप्रा ५, ३७<sup>१</sup>.  
पर्वरीक- पाठ ४, १९.  
पारण<sup>१</sup>- -णम् ऋत्र ३, ४३; -णे  
ऋत्र ३, ३६.  
पारण-कर्मन्- -र्मं ऋप्रा ११,  
७०.  
पारय- पा ३, १, १३८.  
पारयि(ष्ठ>)ष्ठा- -ष्ठे वाधूश्रौ  
३, ४३ : ७.  
पारय(त्>)न्ती- -न्ती या ९,  
१८<sup>१</sup>; माशि ७८; -न्तीम्  
आश्रौ ४, १३, २.  
पारयद्-व(त्>)ती- -त्यौ  
माश्रौ ५, १, ५, ४८.  
पारयन्त<sup>१</sup>- -न्वाय कागृ ४, २०<sup>१</sup>.  
पारयिष्णु- -ष्णवः गोगृ ३, २, ६;  
या ६, ३<sup>१</sup>; -ष्णवे गौध २६,  
१२<sup>१</sup>; -ष्णुम् वौश्रौ ९, ६ :  
५<sup>१</sup>.  
पिप्रत्- -पंप्रतः<sup>१</sup> आपश्रौ १४, ३२,  
२; द्राश्रौ ७, २, १०; लाश्रौ ३, २,  
१०; माशि ११९, १२०.  
पूरण<sup>१</sup>- -णः काश्रौ २४, ७, १८;  
उनिस् २ : १३; -णम् आपश्रौ  
१६, २६, ९; २७, ६; हिश्रौ;

या ७, २८; -णात् उनिस् ४ :  
२८; पा ५, २, १३०; ३, ४८;  
-णे शौच ४, ३८; पा ५, २, ४८;  
पावा ६, ३, ५.  
पूरणी- -ण्याम् पावा ६, ३,  
३३.  
पूरणी-प्रमाणी- -ण्याः पा  
५, ४, ११६.  
पूरण-गुण-सुहिता(त-अ)र्थ<sup>१</sup> पा  
२, २, ११.  
पूरण-प्रत्यया(य-अ)न्त-  
न्तः पावा १, १, २३.  
पूरणा(ण-आ)दि- -दीनि कप्र  
१, २, ८.  
पूरणा(ण-अ)र्थ<sup>१</sup>- -र्थाः वृदे २,  
९०; -र्थे अप्रा ३, ४, १.  
पूरयत्- -यन् या १४, ३०.  
पूरयन्ती- -न्ती भागृ २, २ :  
८; हिगृ २, १७, २.  
पूरयितव्य- -व्याः या ७, २३;  
-व्ये पा ६, ३, ५९.  
पूरयितृ- -ता निस् १०, ५ :  
१०; -तारः निस् ९, १ : ४०;  
४७.  
पूरयित्वा शाश्रौ ४, १४, ३५ आपश्रौ.  
पूरित- पा ७, २, २७.  
पूर्ण, पूर्ण<sup>१</sup>- पा ७, २, २७; -र्णः शाश्रौ  
१, ३, ५; आपश्रौ २२, ८,  
१८; २४, २, २१; वौश्रौ;  
-र्णः-ऽर्णः आश्रौ ११, १, १५;  
-र्णम् आश्रौ १, ११, ६<sup>१</sup>; २, ३,  
१४; शाश्रौ ४, ११, ३<sup>१</sup>; काश्रौ;  
आगृ २, ८, ४<sup>१</sup>; या २, ३<sup>१</sup>;

- a) पाभे. वैप २, ३खं. शीयताम् तैत्रा ३, ७, १४, ५ टि. द्र. । b) पाभे. वैप १, २०८४ j द्र. ।  
c) पूरयन् इति लसं. । d) पिपरित् इति पाठः? यनि. शोघः [ तु. शौ १९, ४०, ४ ] । e) वैप १ द्र. ।  
f) =पारयण- । g) =देवता-विशेष- । कर्तारि झच् प्र. ठसं. (पाठ ३, १२८) । h) पाभे. वैप १, २०८५ i द्र. ।  
i) पाभे. वैप २, ३खं. पारविन्दाय तत्रा १, २, ५ टि. द्र. । j) पाभे. वैप १ विभ्रतः ऋ १०, ५७, ६ टि. द्र. ।  
k) भावावर्ये छत् । पा. =पूरणप्रत्ययान्त- । l) सुपूर्णम् इति आन- , पांशुपूर्णम् इति जीसं. ।

१४, ११; नाशि १<sup>४</sup>, ३, १; २<sup>२</sup>कृ;  
 -र्णया हिश्री १०, ७, २; -र्णस्य  
 माश्री २, ३, ४, १२; -र्णा आश्री  
 २, १८, १३क; काश्री; -र्णाः  
 आश्री २, ४, १३; ६, १२, ६;  
 शाश्री; -र्णात् अश्री १०,  
 ११क; -र्णात् काश्री ९, ६,  
 २४; १३, ४, १; वौश्री; -र्णाम्  
 आश्री २, ६, ५; काश्री ७, ३, १६;  
 आपश्री; -र्णायाम् अप ३०<sup>२</sup>, २,  
 १; आज्यो ७, ५; -र्णे काठश्री  
 ९; माश्री १, ४, १, १; हिश्री;  
 -र्णेन आपमं २, ११, १क; आश्री  
 १, २०, ४; कप्र; -र्णेण विध ९९,  
 १७; सुध ५३; -र्णेः अप २३,  
 १, ५.  
 पूर्ण-कंस- स्तेन कौसू ७७, २१.  
 पूर्ण-कमण्डलु- लुम् वाध २९,  
 १७.  
 पूर्ण-काकुद्, द- पा ५, ४, १४९.  
 पूर्ण-काल<sup>७</sup>- (> पौर्णकालिक-  
 > का, की- पा. ) पाग ४,  
 २, ११६.  
 १ पूर्ण-कुम्भ- म्भस्य अप ६८,  
 २, ३१.  
 २ पूर्ण-कु(म्भ>)म्भा<sup>८</sup>- म्भाः  
 शाश्री १७, १४, १३; १७, ८.  
 पूर्ण-चात्र<sup>९</sup>- त्रेण पाश्री १, १५,  
 ४; गोश्री २, ७, ७.  
 पूर्ण-तम- मम् आश्री २, ३,  
 १३.  
 पूर्ण-त(र>)रा- राम् वैताश्री  
 ७, १२.  
 पूर्ण-दर्व<sup>१०</sup>- र्वम् माश्री १, ७, ५,

२९; वैताश्री ९, ४; -र्वे वौश्री  
 २४, १७ : ३; माश्री ५, २, १५,  
 ३१.  
 पौर्णदर्व- र्वम् आश्री  
 २, १८, ९<sup>१</sup>; ९, २, १५.  
 पूर्णदर्व्य<sup>११</sup>- र्व्यम् शाश्री ३,  
 १५, १४; -र्व्यस्य वौश्री २१, ३:  
 ३१; -र्व्याय वौश्री ५, १० :  
 १६; वैश्री ९, ३ : ४; -र्व्ये  
 वौश्री २१, ६ : १८; -र्व्येण  
 आपश्री ८, ११, १८; २२, ८, १७;  
 वौश्री.  
 पूर्ण-दोहि(न >)नी<sup>१२</sup>- नीम्  
 अप १, ५०, ३.  
 पूर्ण-पात्र- त्रः काश्री ६, १०,  
 ३४; आपश्री ९, १६, १; वौश्री;  
 -त्रम् आश्री १, ११, ५; ८; ३,  
 १३, १७; शाश्री; -त्रस्य आपश्री  
 ८, ७, १२; वाश्री १, ३, ७, १९;  
 -त्राणि जैश्री १, ११ : ३; २६;  
 अप १, ३१, ५; -त्रात् आश्री १,  
 ११, ७; भाश्री ४, २०, १;  
 -त्रान् काश्री १०, ८, ८; -त्रे  
 वौश्री ३, २० : १०××; वाश्री;  
 -त्रेण वैश्री १०, १४ : ४.  
 पूर्णपात्र-वर्जम् आपश्री ८, ७,  
 ११; वैश्री ८, १३ : १३.  
 पूर्णपात्र-विष्णुकम- मैः  
 वौश्री ५, ४ : २२; ९ : १४××.  
 पूर्णपात्र-स्थान- ने वाश्री १,  
 ६, ७, १३; वैश्री ८, १४ : १.  
 पूर्णपात्रा(त्र-आ)दि-(क>)  
 का- का कप्र २, ५, १.  
 पूर्ण-पात्री- त्रीम् कौश्री १, २,

३; शाश्री १, ६, ५.  
 पूर्ण-प्रस्य-द्वि-भाग<sup>१३</sup>- गम्  
 आमिश्री २, ३, १ : १२.  
 पूर्ण-मास<sup>१४</sup>- ऋसः वौश्री १४,  
 १६; ९; १७, ४७ : ३६; आपमं १,  
 १०, ९; आमिश्री २, ५, ५ : ५;  
 वैश्री १, १७ : ५; -ऋसम् आपश्री  
 २, २०, ५; ५, ८, ८; वौश्री; -साः  
 निम् ५, ११ : ३१; -ऋसाय  
 आपश्री २, २०, ५; वौश्री १, १७ :  
 १३; भाश्री; -से आपश्री ४, २,  
 ६; वौश्री; -सेन वैश्री १, १९ :  
 ३.  
 १ पौर्णमास<sup>१५</sup>- पावा ४,  
 २, ३५<sup>१६</sup>; -सः वैताश्री १२,  
 १; कप्र २, ९, २; अप्राय ६,  
 ३; -सम् शाश्री ३, १३, २९;  
 १७-१८, १३; काश्री; अप  
 ३७, ८, १<sup>१</sup>; -सस्य वौश्री २८,  
 १२ : ११; शाश्री १, ३, ७; द्राश्री  
 २, २, ७<sup>१७</sup>; -सात् आश्री २,  
 १४, १३; ४, १, २४; वौश्री;  
 -सानि शाश्री ३, ८, ७; १०,  
 ३; -साय आपश्री ४, २, ४; -से  
 शाश्री १, ३, १४; वौश्री २७, ६ :  
 २७; भाश्री; -सेन आश्री २, १,  
 १××; शाश्री.  
 पौर्णमासी<sup>१८</sup>- पाग  
 ४, ३, १६; -सी काश्रीसं ३१ : १०;  
 वौश्री १७, ५१ : १७××; भाश्री;  
 या ११, २९; -सीभिः शाश्री  
 १३, २०, २; -सीम् आश्री ३,  
 १०, १०; शाश्री ३, ११, ३; काश्री;  
 -सीम्-सीम् वौश्री १७, ४८ :

a) = गानगुणवृत्तिविशेष- । b) तु. पागम. । c) विप. । वस. । d) = सञ्जपूर्ण-न्तर्क- । e) वैप २,  
 ३ खं. द्र. । f) सपा. हिश्री ६, ८, ८ पौर्णदर्व्ये इति पाभे. । g) स्वाये यत् प्र. । h) विप. (घनु- ) ।  
 ३) कस. > वस. > कस. । j) वैप १ द्र. । k) = पौर्णमासी-तिथि- । l) विप. (तन्त्र- ) । m) पूर्ण इति  
 आन. । n) = तिथि- वा इष्टि- वा ।

२; -सीषु गोष्ठ ३, ३, २१;  
-सीषुऽ-सीषु वौश्रौ २३, १५;  
४; -स्यः वौश्रौ १६, १२ : ७;  
-स्या आपश्रौ ८, ४, १; ८,  
१९××; माश्रौ; -स्याः आश्रौ  
९, ३, २; शाश्रौ १३, १९, ५;  
काश्रौ; -स्याम् आश्रौ १, ३, ८;  
१३××; शाश्रौ; -स्यै आपश्रौ  
२१, १५, ५; वौश्रौ; -स्यौ  
२, १४, ७; शाश्रौ १, ३, ३; ५;  
आपश्रौ; या ११, २९.

२पौर्णमास-

पा ४, ३, १६.

१पौर्णमासि-

क<sup>२</sup>-कम् अप १८<sup>२</sup>, ४, १.

पौर्णमासी-

काल-लाः गोष्ठ १, ५, ११.

पौर्णमासी-दी

(त्ता>)क्ष<sup>०</sup>-क्षम् काश्रौ २४,  
४, २१.

पौर्णमासी-दी-

क्षा-मासा(स-अ)पवर्ग<sup>०</sup>-र्गाः  
लाश्रौ १, ५, १.

पौर्णमासी-

प्रक्रम<sup>०</sup>-माणि काश्रौ २४,  
३, ३२.

पौर्णमासी-

प्रभृति-त्तयः लाश्रौ १०,  
११, १.

पौर्णमासी-

प्रसव<sup>०</sup>-वः द्राश्रौ ८, ४, ७;  
लाश्रौ ४, ८, ७; -वम् लाश्रौ  
१०, २०, १३.

पौर्णमासी-

वत् मीसू २, २, ९; ९, १, २६;  
११, २, ३५.

पौर्णमासी-

विकार-रः शाश्रौ १, १६, १२;  
२, २, ४××.

पौर्णमासी-सु

(त्या>)स्य<sup>०</sup>-स्यः काश्रौ १५,  
९, १५.

पौर्णमास्य-

(सी-अ)तिपत्ति-त्तौ काश्रौसं  
३१ : ११.

पौर्णमास्य-

(सी-अ)तिरात्र-त्रः लाश्रौ  
१०, १, ८.

पौर्णमास्य-

(सी-अन्त>)न्ता<sup>०</sup>-न्ता वैश्रौ  
२०, ४ : ३.

पौर्णमास्य-

(सी-अ)मावास्या-स्ये कौसू  
९४, ७; अप १, १४, १.

पौर्णमा-

स्यमावास्या-सं(स्या>)स्य<sup>०</sup><sup>०</sup>-  
स्यौ आश्रिण ३, ५, १ : ८.

पौर्णमास्य

(सी-अ)ष्टका(का-अ)मावास्या-  
(स्या-अ)ग्न्युत्पात-भूमिकम्प-  
श्मशान-देशपतिश्रोत्रियैकती-  
र्थप्रायण-णेषु वौध १, ११,  
२२.

पौर्णमास्या-

(सी-आ)रम्भण<sup>०</sup>-णौ वाश्रौ  
१, ४, ४, ३९.

पौर्णमास्यु-

(सी-उ)पक्रम<sup>०</sup>-सौ वौश्रौ २४,

२० : १; वौषि १, १ : ७.

पौर्णमास-तन्त्र-

-न्त्रम् माश्रौ ५, १, १, २३; ३१;  
४, २४; अप १८<sup>२</sup>, १, ३; -न्त्रेण  
माश्रौ ५, १, १, २०.

१पौर्णमास-धर्म-

-र्माः काश्रौ ५, ११, ३.

२पौर्णमास-धर्म<sup>०</sup>-

-र्माः काश्रौ ६, १०, १७.

पौर्णमास-वत् काश्रौ

४, २, ४४; ७, ११; १२, ११;  
काश्रौसं ४ : १.

पौर्णमास-वैश्वध-

-धाभ्याम् वौश्रौ २, २१ : १५;  
५, ४ : २३××.

पौर्णमास-हविस-

-विभिः वौश्रौ १७, २० : ६;  
-वौषि वौश्रौ १८, ५३ : ८.

पौर्णमासा(स-अ)

त्यय-ये कप्र २, ९, ८.

पौर्णमासा(स-आ)

दि-दि<sup>०</sup> कप्र २, ९, १.

पौर्णमासा(स-अ)

न्त-न्ते काश्रौ २५, ७, ४.

२पौर्णमासिक<sup>०</sup>->

की-की वाश्रौ ३, २, ६, ५६<sup>०</sup>;  
काश्रु ७, २.

पौर्णमासो(स-उ)प-

क्रम<sup>०</sup>-सौ द्राण २, १, १.

पौर्णमास्य<sup>०</sup>-स्यम्

वौश्रौ १, २१ : ३४; वाश्रौ १, ४,  
४, ४१<sup>०</sup>; अप्राय ३, १०; -स्येन

शाश्रौ १३, २९, ९; हिश्रौ ५,  
६, ४; आश्रिण ३, ४, १ : ८.

a) विप. । तेननिर्वृत्तीयस्तत्रकार्यो वा ठल् प्र. (यक. पा ५, १, ७९; ९६) । b) विप. । वस. ।

c) विप. (अहीन-) । वस. पूष. उप. च सस. । d) उप. = समाप्ति- । e) चम् इति जीसं. । f) तत्त्वेदनीयः

प्र. । g) सप्र. माश्रौ ५, २, १२, ३५ दार्शिकी इति पामे. । h) विप. । तेननिर्वृत्तीयस्तत्रभवो वा चत् प्र. ।

i) पामे. वैप १, २०८६ p द. ।

पूर्णमास्य<sup>a</sup>- -स्यम् वाश्रौ  
३, २, ४, २.  
१पूर्ण-मुख- -खन माश्रौ १, ५,  
३, ७.  
२पूर्ण-मुख<sup>b</sup>- -ःखः<sup>c</sup> आपमं २,  
१८, ३२?; भाग्य २, ९ : ८?;  
-खम् हिग्य २, ८, ११<sup>d</sup>.  
पूर्ण-मुष्टि- -ष्टिम् शाग्य ४,  
१७, ३<sup>e</sup>.  
१पूर्ण-वन्धुर<sup>f</sup>- -रः वौश्रौ ५,  
१५ : ११; द्राश्रौ १३, २, ७;  
लाश्रौ ५, २, १०.  
पूर्ण-वि-घन<sup>g</sup>- -नम् शाग्य १,  
३, ३.  
पूर्ण-शराव- -वाणि आग्य १,  
१७, २.  
पूर्ण-सुव- -वम् माश्रौ १, २,  
६, २७; ३, १, ५××; वाश्रौ १,  
३, ३, २२; ४, ३.  
पूर्ण-होम<sup>h</sup>- -मः गोग्य ४, ८, २३;  
-मम् वैताश्रौ ६, ९; १०, १;  
द्राग्य; -मे कौसू १३८, १५१;  
-मौ कौसू ७३, ४<sup>i</sup>.  
पूर्णा(री-अ)ञ्जलि- -लिम् कौसू  
७८, १६; १३३, १.  
पूर्णाद्वि<sup>j</sup> > पौर्णाद्वि<sup>k</sup>- -र्वे  
हिश्रौ ६, ८, ८<sup>k</sup>.  
पूर्णा(री-अ)वसान<sup>b</sup>- -नाः निसू  
५, ११ : ३३.

पूर्णा(री आ)हुति- -त्यः वैश्रौ  
२०, ९ : ३; -तिः काश्रौ १५,  
१, ५; वौश्रौ २७, ११ : १८; २०;  
वाधूश्रौ ३, १२ : १?××; वाश्रौ;  
-तिभिः जैग्य १, २० : ३०१;  
-तिम् आश्रौ ३, १३, १४; वाश्रौ  
८, १३, १; काश्रौ; -ती माश्रौ  
१, ७, ३, ४, ५; वैश्रौ; -तीः वाश्रौ  
१८, २४, २७; आपश्रौ; -तीनाम्  
वाश्रौ ३, ४, १, ४, ९; -तेः काश्रौ  
४, ७, २२१; माश्रौ; -तौ वौश्रौ  
२, १८ : २६; ४, ११ : २८; २०,  
१८ : १; भाश्रौ; -त्या वौश्रौ  
२१, २६ : ८; वैश्रौ २०, २२ :  
३; ६; -त्याम् वैश्रौ १६, ८ : ४;  
-त्यै वौश्रौ २०, १७ : ३१; १९ :  
५××; वाधूश्रौ ४, ३२ : २६.  
पूर्णाहुति-वर्जम् वाश्रौ २, १,  
२, १७; ३, ४, १, ४८.  
१पूर्णाहुत्य(ति-अ)न्त- -न्ते  
काश्रौ ४, १०, ४; २०, १, १९.  
२पूर्णाहुत्य(ति-अ)न्त<sup>b</sup>-  
-न्तम् आश्रौ २, १, १७; वौश्रौ  
२४, १५; १४; १७ : १०; वैताश्रौ  
४३, २.  
पूर्णाहुत्या(ति-अ)दि-क<sup>b</sup>-  
-कम् कप्र ३, १, १७.  
√पूर्णि > पूर्ण-क<sup>m</sup>- -क कौसू  
२०, ३.

पूर्णिमा<sup>n</sup>- -माम् अप ९, ४, ६<sup>o</sup>.  
पूर्णे(र्ण-उ)ङ्कुम्भ- -म्भेषु विध  
९९, १३.  
पूर्णे(र्ण-ऊ)न- -नान् द्राश्रौ ८,  
४, २४; लाश्रौ ४, ८, २०.  
पूर्णे(र्ण-उ)पक्रम<sup>p</sup>- -माः निसू  
५, ११ : ३२.  
पूर्त<sup>q</sup>- -पाग ५, २, ८८; -र्तम्  
आपश्रौ ४, ९, ६<sup>p</sup>; भाश्रौ ४, १३,  
१<sup>p</sup>; हिश्रौ ६, ३, २<sup>p</sup>; जैग्य २,  
२ : २२-२४; शंघ १३८; -र्तस्य  
कौसू ३, ७<sup>q</sup>; १३७, ३९.  
पूर्तिन्- -पा ५, २, ८८.  
पूर्ति- -र्त्या वौश्रौ ६, ७ : २४;  
भाश्रौ १०, १२, २.  
पूर्व्या आपमं १, १, ९<sup>r</sup>.  
पूर्वमाण- -णे आश्रौ ५, १, १३.  
१पृणत्- -णन् वौश्रौ ६, ७ : २४;  
भाश्रौ १०, १२, २.  
पृणाति- > ण्ति-निगम- -मौ या  
५, २४.  
√पृक्ष् (वधा.) > पृक्ष<sup>s</sup>- -पृक्षः अप  
४८, ८८; निघ २, ७.  
१पृक्ष<sup>t</sup>- -क्षस्य<sup>r</sup> आश्रौ ७, ४, १३;  
७, ८; ८, ६, २२; शाश्रौ १०, ३,  
१५; ऋअ २, ६, ८; -क्षे निघ  
२, १७.  
√पृच्, ञच् (वधा.) पाधा. अदा.  
आत्म. संपर्चने; रुधा. उभ.

a) = पौर्णमास्य- । b) विप. । वस. । c) खः परिक्रामतु इति पाठः ? खं परिक्रामन्तु इति शोधः (तु. सपा. हिग्य. [d टि.]) । d) विप. ([आहुतिभिर्हूयमान- = भरितमुख-] अग्नि-) । वस. । '(तस्याग्ने- र्गन्धं जिघ्रन्त्यः गावस्तं) पूर्णमुखं (सन्तं) परिक्रामन्तु' इति वा. (वैतु. Old. कस. इति ?) । e) सप्र. कौग्य ४, ४, ३ तेषां मुष्टिम् इति पाठे. । f) वैप १ द्र. । g) विप. । ([विशद-] चरु-) । वस. । पूष. क्वि.व., उप. = विगतघनी- भाव- (तु. कप्र २, ५, १३ अकठिनम्) । h) = पूर्णाहुति- । i) < पूर्णाद्वि (मां ३, ४९) । j) = होमविशेष- । प्राग्दीव्यतीयः ण्यः प्र. । k) पाठे. पृ १६२७ f द्र. । l) पाठः ? ण्ते इति शोधः [तु. C.] । m) विप. (वृषभ-) । कर्तारि ण्वुल् प्र. । n) = पौर्णमासी- । २पूर्ण- (भाप.) + तेन निर्वृतीयः इमप् प्र. (पावा ४, ४, २०) । b) सप्तम्यर्थे छान्दसं द्वि. । p) पाठे. वैप २, ३३. पूर्वम् एवा ७, २४ टि. द्र. q) पाठे. वैप १, २०७ र. । द्र. । r) पाठे. वैप १, २०८८ e द्र. ।

संपर्के; चुरा. उम. संयमने,  
 पृञ्चन्ति शांश्रौ १४, २२, १९;  
 पृणक्षि निघ ३, २०<sup>११</sup>; पृणचि  
 माश्रौ २, ४, ३, ९<sup>१०</sup>; ण्पृण-  
 चि<sup>१०</sup> आपश्रौ १२, २८, १६;  
 वैश्रौ १५, ३७ : ८; पृणक्तु वैश्रौ  
 १८, १० : २१<sup>१</sup>; ण्पृङ्क्तम् काश्रौ  
 १२, ३, १४; आपश्रौ २१, ७, १७;  
 वैश्रौ.  
 ण्पृच्यताम् आपश्रौ १०, २४, ५;  
 वैश्रौ ६, १, ४ : १०; भाश्रौ.  
 ण्पृक्षः<sup>१</sup> अप ४८, ९; निघ ३,  
 १४<sup>८</sup>.  
 पर्वयत्- -यता वागृ ९, ३<sup>१</sup>.  
 पृक्त, क्ता- -क्तम् वैश्रौ २४, २६ :  
 ११<sup>१</sup>; कौस् ३०, ३; गौष ११,  
 १९<sup>१</sup>; -क्ता या ३, ८; -क्तानि  
 कौस् १३, ६.  
 पृक्त-स्वर- -रात् तैप्रा १३, १६.  
 पृच्<sup>१</sup>- पृक्षु अनिसू ४ : २३<sup>१</sup>.  
 पृञ्च(त् >)ती- -तीः काश्रौ ४, २,  
 ३२; माश्रौ १, १, ३, ३२; वाश्रौ  
 १, २, २, २८; कौगृ १, २१, ७;  
 शांश्रु १, २८, ८.  
 √पृच्छ्, प्रच्छ<sup>१</sup> पाषा. तुदा. पर.  
 शीप्तायाम्, पृच्छते आश्रौ ४,  
 ११, ६<sup>१</sup>; अप ६४, १, ६; ७१, २,  
 ४; पृच्छति आश्रौ ५, १, १४; ५,  
 २५; १०, ९, २; शांश्रौ; पृच्छतः  
 वैश्रौ १२, १८ : ७; वैगृ १, ८,  
 ६; पृच्छन्ति आश्रौ १०, ९, २;  
 आपश्रौ २१, ११, ७; वैश्रौ;

पृच्छसि या ९, ३०<sup>१</sup>; ण्पृच्छामि  
 आश्रौ १०, ९, २<sup>३</sup>; शांश्रौ १६,  
 ६, १; २<sup>१</sup>; काश्रौ; वैश्रौ १५,  
 २९ : ८<sup>१</sup>; वाश्रौ ३, ४, ४, १<sup>१</sup>;  
 पृच्छामः लाश्रौ ९, १०,  
 १३<sup>१</sup>; शुप्रा १, २८; पृच्छात्  
 काश्रौ ६, ८, १<sup>१</sup>; पृच्छ, >च्छा  
 वैश्रौ १८, ४६ : ८; ऋप्रा ८,  
 २८; ण्पृच्छत् > ता ऋअ २, १,  
 १४५; ऋप्रा ८, १५; ण्पृच्छत् वृदे  
 ५, ६९; ण्पृच्छन् अप ६९-७०,  
 १, १; पृच्छत् आश्रौ २, १,  
 १५; काश्रौ १२, ३, १८; वैश्रौ;  
 पृच्छेद्युः आपश्रौ २०, ५, १५;  
 २१, १०, १३<sup>१</sup>; वैश्रौ.  
 पप्रच्छ शांश्रौ १५, १७, १; वैश्रौ;  
 या २, ९; ६, ५; पप्रच्छुः वृदे ८,  
 २६.  
 पृच्छत्- -च्छतः अप ६८, १, ३;  
 शंघ २२७; वृदे ८, २७; आज्यो  
 १, २.  
 पृच्छमान, ना- -नत्प आज्यो १४,  
 ११<sup>१</sup>; -नाः या ण्पृच्छ, १४;  
 १५; -नानि या १४, १५.  
 ष्पृष्ट, ष्टा- -ष्टः शांश्रौ १५, १७, १;  
 काश्रौ ९, ३, १२; वैगृ; -ष्टम्  
 आपश्रु ११, २<sup>१</sup>; वाघ २, १२;  
 वैघ १, २, ५०; -ष्टाः विघ ८१,  
 १९; -ष्टानि आपश्रौ २०, १९,  
 ७; -ष्टाम् वैताश्रौ ८, २०.  
 पृष्ट-प्रतिवचन- -ने पा ३, २,  
 १२०; ८, २, ९३; पावा ३, २,

१२०.  
 पृष्टवत्- -वान् वृदे ५, ७१.  
 पृष्ट्वा आश्रौ ८, १४, ४; १६;  
 शांश्रौ; पा १, २, ८.  
 प्रश्न- पा ३, ३, ९०; -श्नः  
 काश्रौ ४, २, २४; आपश्रौ ११,  
 १२, ४; चाश्रुश्रौ; -श्नम् वैश्रौ  
 १४, ११ : ३२; ३३; आपष;  
 -श्नात् जैश्रौका ६; -श्ने माशि  
 ११; पा ३, २, ११७; ८, १, ३२;  
 -श्नेषु गौषि २, २, २६.  
 प्रश्न-प्रतिप्रश्न-भूत, ता- -तम्  
 शुष ३, ३७; -ताः शुष ३, २४.  
 प्रश्न-शस् (: ) ऋप्रा १५, २२.  
 प्रश्न-स्थान- -ने ऋ १, ३, १०.  
 प्रश्ना(श्न-ञ्)ख्यान- -नयोः  
 पा ८, २, १०५; पावा २, ३, २८.  
 प्रश्ना(स्न-ञ्)न्त- -न्तेऽन्ते  
 काश्रौ ७, ८, १२.  
 प्रश्नान्ता(न्त-ञ्)भिपूजित-  
 -तयोः पा ८, २, १००.  
 प्रश्नान्ता(न्त-ञ्)भिपूजित-  
 विचार्यमाण-प्रत्यभिवाद-  
 याज्यान्त- -न्तेषु पावा ८, २,  
 १०७.  
 प्रश्नो(श्न-ञ्)चर-मुत्<sup>१</sup>- -स्तेन  
 अत्र ५, ११.  
 प्रष्टव्य- -व्याः विघ ८, १०.  
 प्राश<sup>१</sup>- पाठ २, ५७; पावा ३,  
 २, १७८; प्राशम् कौस् ३८,  
 २४<sup>१</sup>.  
 प्राह-विवाक<sup>०</sup>- -कः गौष १३,

a) घा. दाने वृत्तिः । b) पामे. वैप १, २०८८ q द्र. । c) वावि. <पृणचि । d) स्रजन्ताल् लेटि मपु १ । घा. स्तुतौ वृत्तिरिति त्कन्दत्वामी इति दे. । e) पि<sup>०</sup> इत्यपि मूले. । f) सपा. पागृ २, १, १८ मज्जयता इति, आगृ १, १७, १६ मर्वयता इति, कागृ ४०, १२ भागृ १, २१ : ७ वर्तयता इति च पामे. । g) वैप १ द्र. । h) पा ७, २, ७५ पावा १, ४, ५१; ४, ४, १ परानृष्टः द्र. । i) पामे. वैप १, २०८९ i द्र. । j) ष्णस्य इति पाठः ? यनि. शोषः । k) प्र<sup>०</sup> इति चौसं. ? । l) विप. । द्रस. > दस. । m) भावे कर्तरि वा ऋिप् प्र. । n) = प्रस्न- । o) कस. । उमयत्र कर्तरि प्र. (द्र. मिताक्षरा [यात् २, २]; वैतु. अमा. शक. भावे प्र. ) ।

२६; -कम् गौघ १३, २७; -के गौघ १३, ३१.

✓पृञ्च्, पृञ्चती- ✓पृञ्च् द्र.

✓पृञ्ज् पाधा. अदा. आत्म. वर्यो, संपर्चने, अत्रयवे, अव्यक्तो शब्दे.

✓पृञ् पाधा. तुदा. पर. सुखने.

✓पृण् पाधा. तुदा. पर. प्रीणने, ष्पृणस्व आश्रौ ६, २, १<sup>२</sup>; शांश्रौ ९, ५, २; १४, २१, २; आपश्रौ; ष्पृण काश्रौ १६, ७, १९; आपश्रौ ७, १०, ७××; वौश्रौ; पृणत > ता या ३, २०; ऋप्रा ८, १५.

पृणत्- पृणाति- ✓पृ, पृ द्र.

पृत्<sup>२</sup>- पावा ६, १, ६३; ष्पृत्सु आपश्रौ १२, ६, ५; वौश्रौ ५, ८ : १; ७, ४ : ३; वैश्रौ.

ऽपृत्सुषु<sup>३</sup> ऋप्रा ७, ५०.

पृत्(न >)ना<sup>४</sup>- पाठभो २, २, २०६; -ना अप ४८, १०५<sup>५</sup>; -ःनाः आश्रौ ७, ४, ३; शांश्रौ; या ९, १४; -नानाम् या ९, २४; -ःनाम् वौश्रौ १४, १६ : १४; आमिगृ २, ५, ५ : १०; -नायाः शुप्रा ३, ७४<sup>६</sup>; -ःनासु आश्रौ ३, ७, ७; आपश्रौ; या ५, २.

पृत्ताज<sup>७</sup>- जम् शांश्रौ १४, ४४, १<sup>७</sup>; या १०, २८<sup>८</sup>क<sup>०</sup>.

पृत्ताज्य<sup>९</sup>- ज्यम् निघ २, १७<sup>९</sup>; या ९, २४<sup>१०</sup>; -ज्ये आश्रौ ६, २, ५<sup>११</sup>; -ःज्येषु वौश्रौ १४, १६ : १०; आमिगृ १, ५, २ : २१; २, ५, ५; ६; या ९, २४.

पृत्ताज्य- ज्येषु पाठ १, ५, ९<sup>१२</sup>.

पृत्ताजि<sup>१३</sup>- जि आपमं २, ८, २<sup>१३</sup>.

पृत्ताजि- जि आपमं १६, ३०, १; वैश्रौ १८, २० : ३९; हिश्रौ ११, ८, ४; भागृ २, २१ : १५; -जितम् शांश्रौ १४, ४४, १; कौसू ६९, २२<sup>१४</sup>; अप्राय २, १<sup>१५</sup>; अत्र ७, ६३<sup>१६</sup>; या १०, २८.

✓पृत्ताज्य > पृत्ताज्यत्- ष्पृत्तः वैताश्रौ ६, १<sup>१</sup>; आपमं; कौसू १, ८, २०<sup>१</sup>.

पृत्तापा (<सा)ह- पा ८, ३, १०९; -ःपाट् वैताश्रौ २५, १<sup>१६</sup>; अप्रा ३, ४, १; -०पाट् अत्र ५, १४<sup>१७</sup>.

ष्पृत्तापाह<sup>१८</sup>- ह्याय ऋप्रा ९, ३०; शुप्रा ३, ७४; १२२.

ष्पृत्तापाह- सहम् वौश्रौ १३, ५ : १६; १७, ४१ : १८.

ष्पृत्तापाह- साहम् आमिगृ १, ३, ४ : १२; हिगृ १, १०, ६.

पृत्ताहव<sup>१९</sup>- वेपु आश्रौ ३, ७, १३<sup>१९</sup>.

✓पृत्ताज्य पा ७, ४, ३९; पृत्ताज्यति आपश्रौ ३, १४, २; भाश्रौ ३, १३, १; हिश्रौ २, ६, ३४; ष्पृत्ताज्यत् आपश्रौ २१, १२, ९; वाश्रौ ३, २, २, ३६; हिश्रौ १६, ५, ३; वैताश्रौ ३४, १.

पृत्ताज्यत्- ष्पृत्तः आपश्रौ १६, २, १०<sup>२०</sup>; २०, २०, ७; वौश्रौ ३, १६ : ७; ७, १३ : २५; १०, २ : १९<sup>२१</sup>××; हिश्रौ ११, १, २२<sup>२२</sup>; १५, ७, ८<sup>२३</sup>; वैताश्रौ; कौसू १, ८, २०<sup>२४</sup>; वौसू १, ४, २४<sup>२५</sup>; २, ५, १०<sup>२६</sup>; शौच २,

१०७<sup>२७</sup>; -न्यता आपश्रौ १२, २२, ५<sup>२८</sup>.

✓पृथु ✓पथ् टि. द्र.

✓\*पृथु, प्रथ<sup>१</sup> पाधा. भ्वा. आत्म. चुरा. पर. प्रख्याने, ष्पृथताम् काश्रौ २, २, १०; आपश्रौ; ष्पृथ-स्व आपश्रौ १, २५, ३; ७, ४, ५; वौश्रौ; कौसू २, १७<sup>२</sup>; या १, १५; प्रथत् आपश्रौ ३, ७, १४; वैश्रौ ७, ७ : ११; हिश्रौ २, ४, ४१; अप्रथत् भाशि ७३<sup>३</sup>; अप्रथेताम् तैप्रा ४, २.

ष्पृथये शांश्रौ ६, १०, ४; आपश्रौ २, १, ३; ५, १३, ४; वौश्रौ; या ६, ७.

प्रथयति काश्रौ २, ५, २०; १६, ३, २५; वौश्रौ; या १, १५; प्रथयन्ति भागृ २, ३० : ११<sup>४</sup>; अप्रथयत् ष्पृथांश्रौ ८, २५, १; १२, २०, २; ष्पृथयि आपश्रौ ४, ७, २; वौश्रौ १, १४ : २४; भाश्रौ ४, ११, १; हिश्रौ ६, २, १७.

अप्रथयन्त या ७, २५<sup>५</sup>; अप्रथ-यिष्यत् या १, १३; १४.

पृथ<sup>६</sup>- थः काश्रौ ५, ३, १०; -थेन वौश्रौ २२, ९ : ६.

पृथ-मात्र- त्रम् काश्रौ ६, १, २७; आपश्रौ ७, ३, ४; ८, ५, १०; भाश्रौ; -त्रात् वौश्रौ ५, ५ : ११; -त्रेण भाश्रौ ८, ४, ८; वैश्रौ ८, ९ : ४; हिश्रौ ५, २, १०.

पृथमात्री- त्रीम् आपश्रौ २, २, ७.

a) वैप १ द्र. । b) = शर- । c) पामे. वैप १, २०९१ h द्र. । d) वैप १, २०९१ i द्र. ।

e) पामे. वैप १, २०९१ o द्र. । f) पामे. वैप १, २०९२ g द्र. । g) पामे. वैप १, २०९२ l द्र. । h) पामे.

वैप १, २०९२ s द्र. । i) या ५, २५ पा ७, ४, ९५ परामृष्टः द्र. । j) पामे. वैप १, २०९३ i द्र. । k) = प्रमाण-

विशेष- (=आ मणिवन्धात् प्रसृताङ्गुलि-पाणि- इति विद्याधरः) ।

पृथोत्तरयुगे<sup>३</sup> वौशु १:४.

\*पृथस्- > पृथस्नु- स्नुः वाश्रौ  
१,३,३,२४<sup>१</sup>.

१पृथु<sup>२</sup>- पाठ १, २८; पाग ५, १,  
१२२; २,९७; -थु शाश्रौ १२,  
१९, ३१; काश्रौ २१, ३, २८;  
पाग २, ६, २४; या ९, ३२;  
१२, २३<sup>३</sup>; ऋप्रा ४, ६१; ८४;  
-थुः आश्रौ ४, १४, २; काश्रौ;  
चा १, १४; २, २; ६, ७; -थुना  
वौश्रौ १०, ५; १<sup>१</sup>; -थुम् काश्रौ  
१८, ४, २३; आपश्रौ १, २५, ६;  
-<sup>१</sup>थुनि आपश्रौ १६, १४, ५;  
वाश्रौ २, १, ५, २०; वैश्रौ १८,  
१२: १३.

१पृथ्वी- स्वी आपश्रौ  
१०, ९, १३; वौश्रौ ६, १: २;  
-स्वीम् माग १, २२, ७.

पार्थिव- पा ५, १, १२२;  
-वम् कप्र १, ७, ४<sup>d</sup>.

१पार्थिव<sup>e</sup>- वेन जैग २, ३:  
११.

पृथु-केश-स्तु(क>)का<sup>f</sup>- -०के  
या ११, ३२.

†पृथु-आवन्<sup>g</sup>- वा माश्रौ १,  
२, २, १०; वाश्रौ १, २, ४, ४३.

पृथु-जव(न>)ना<sup>h</sup>- -०ने या  
११, ३२.

पृथु-जव<sup>h</sup>- वः या ५, ९.

पृथु-जाव(न>)ना<sup>h</sup>- -०ने  
ऋप्रा ९, ४९.

†पृथु-अवस्<sup>f</sup>- -याः अप ४८,  
११५; निव ४, २; या ५, ९६.

पृथु-अ(अ>)यी<sup>h</sup>- यी ऋप्रा

२, ५९.

पृथु-ता- पा ५, १, १२२.

पृथु-त्व- पा ५, १, १२२; -त्वे  
अप २२, ४, २; -त्वेन अप २२,  
३, ३.

पृथुपाज<sup>l</sup>- > पृथुपाज-व(त>)  
ती<sup>l</sup>- -स्यौ आपश्रौ १९, १८,

३; वौश्रौ १०, ११: ३; माश्रौ.

†पृथु-पाजस्<sup>f</sup>- -जसा आश्रौ ७,  
१२, ७; शाश्रौ ११, ९, ३; -जसे

आश्रौ ५, २०, ६; वाश्रौ ८, ६, २;  
१८, २३, २; -जाः आश्रौ २,  
१, २६; ८, ६, ३; माश्रौ ५, १, १,

६; २, १, २५.

पृथु-बुध्न<sup>h</sup>- ध्नः वौश्रौ ३,  
२२: १५<sup>१</sup>; लाश्रौ १०, १५,  
१४; -ध्नम् वौश्रौ ९, ३: १६,

-ध्नान् वौश्रौ ११, १: ७.

पृथु-मात्र- -त्रम् माश्रौ १, ८, १,  
१६; हिश्रौ ४, १, ३३.

पृथु-मुख<sup>h</sup>- पा ६, २, १६८;  
-खः काश्रौ ७, ४, ८.

पृथु-रश्मि<sup>h</sup>- -श्मेः चाश्र ५: ३.  
पार्थुरश्मि<sup>f</sup>- -श्मम् लाश्रौ

७, ५, १३; १०, २, १५; निस्;  
-श्मस्य लाश्रौ ७, ५, १४.

पृथु-ल- पाठभो २, ३, ११०;  
पा ५, २, ९७; -ले अप २४,  
५, २.

पृथुल-मध्यम<sup>h</sup>- -मः अप  
२४, ३, ४.

पृथु-शब्द- -ब्दे ऋप्रा ४, ५४.

पृथु-अवस्<sup>f</sup>- -वसः ऋश्र २, ८,  
४६; -वसि शाश्रौ १६, ११,

२३; -वाः वौश्रौ १७, १८: २;  
वौग ३, १०, ६; वृदे ६, ७९.

पृथु-रलक्षण- -क्षणे मीस् १०,  
१, ५५.

†पृथु-पुका<sup>f</sup>- -०के वैताश्रौ १,  
१४; आमिग २, १, ५: १७;

शुश्र ४, ६; अश्र ७, ४६; या  
११, ३२<sup>३</sup>.

पृथु-पुट(त>)ता- -०ते या  
११, ३२.

पृथु-सेडिलिष्ट- -ष्टाः वौशु १:२.

पृथ्व(थु-अ)ग्न<sup>h</sup>- -ग्नम् वैश्रौ  
१२, ९: ८.

पृथ्व(थु-अ)न्त<sup>h</sup>- -न्ताः या ४,  
१३.

\*पृथुस्- > पृथुस्नु- स्नुः माश्रौ  
१, २, ६, २०<sup>b</sup>†.

प्रथ्-> प्रथिमन्<sup>l</sup>- पा ५, १, १२२;  
-मनः आपश्रौ १४, ६, ११;

हिश्रौ ९, ८, २८.

प्रथिष्ट- -ष्टम् आपश्रौ १२, ३,  
१५; वैश्रौ १४, ९: ११; हिश्रौ

७, ६, ३६; आमिग २, ३, ५:  
१७<sup>१</sup>; -ष्टे काश्रौ १७, ५, २३.

प्रथीय(स्>)ली- -सी आपश्रौ  
२, ३, २; वौश्रौ २४, २४: ८;

आपशु ४, ६; -सीम् माश्रौ २,  
२, १२; -स्यौ कौस् १३७, ३.

प्रथन- -नम् आपश्रौ ५, २, ४<sup>१</sup>;  
वाश्रौ १, ४, २, २<sup>१</sup>; -नात् या

१, १३; १४.

प्रथन-कर्मन्<sup>h</sup>म्- -र्मणाम् या  
१४, १२.

†प्रथमान, ना- -नम् आपश्रौ ४,

a) अर्थः व्यु. च ? । b) सपा. पृथस्नुः <> पृथुस्नुः <> प्रथस्नुः ( तैत्रा ३, ७, ५, ३च) इति पाठे. ।  
शेषं वैप २, ३खं. द्र. । c) वैप १, २०९४ C द्र. । d) पार्थिवम् इति जीसं. । e) = पृथुव- । पाठः ? पार्थिव-  
इति शोधः । f) वैप १, २०९५ i द्र. । g) वैप १ द्र. । h) विप. । वस. । i) < पृथुपाजाः (ऋ ३,  
२७, ५) । j) = [घा. प्या-] ऋच्- । k) = ऋषि-विशेष- । l) पाप्र. पृथु-> यनि, इति. । m) राज्ञ. पाठः ।



५,५; माश्रौ ४, ८, २; वैश्रौ ५,  
६: ३; हिश्रौ ६, २, ९; -ना  
आपश्रौ ५, ९, ११; माश्रौ १, ५,  
२, १२; वाश्रौ १, ४, २, २; हिश्रौ  
३, ३, ३२.  
प्रथयत्- -यन् आपश्रौ १, २५, ३;  
-यन्तः आश्रौ ४, ६, ३;  
आपश्रौ.  
प्रथयित्वा आपश्रौ ३, ६, ११; ५,  
१९, २; ७, ४, ५; माश्रौ.  
प्रथयस्- -यः आश्रौ ४, ६, ३;  
आपश्रौ १६, २३, ७<sup>b</sup>; वैश्रौ १८,  
१७: २४<sup>b</sup>; वैश्रौका ५९; ऋअ  
२, १०, १८१; वृदे ८, ७७;  
अश्र १३, ४(६).  
प्रथयस्-नु- -नु: आपश्रौ २,  
१०, ६; वैश्रौ १, १४: १२;  
माश्रौ २, १०, ७; वैश्रौ ५, ८: ८;  
हिश्रौ १, ८, २.  
प्रथित- -ता: अप ६४, ८, १.  
प्रथित-पराक्रम- -मः अप ५१,  
४, ४.  
प्रथित-यशस्- -शसः सु ५, २.  
प्रथिति- पाठ ४, १८३.  
पृथ- ✓\*पृथ् द्र.  
पृथक्<sup>a</sup>- पाठ १, १३७; आश्रौ २, १४,  
५; ३, ४, ५××; शाश्रौ; आपश्रौ  
५, ९, ११<sup>क</sup>; माश्रौ; वाश्रौ १,  
४, २, २<sup>क</sup>; हिश्रौ ३, ३, ३२<sup>क</sup>;  
पा २, ३, ३२; पृथक्ऽपृथक् वाश्रौ  
२४, २: १; माश्रौ.  
पृथक्-करण- -णम् पावा ५, २, ५१.  
पृथक्-कर्म-स्तुति- -ति: वृदे ६,  
७०.  
पृथक्-कल्पन-त्व<sup>b</sup>- -त्वात् मीस्

१०, ७, २.  
पृथक्-काम- -मः वैश्रौ ३, १: २;  
१२, २: ८; -मेषु काश्रौ १२,  
४, २६; -मैः आश्रौ १०, १, ७.  
पृथक्-क्षेत्र- -त्रा: शंघ २०८.  
पृथक्-चर- -रा: अप ५२, १, ४.  
पृथक्-त(न्त्र>)-न्त्रा- -न्त्रा माश्रौ  
५, १, ६, ३२.  
पृथक्-त्व- -त्वम् आश्रौ १०, ५,  
१३; -त्वात् या १, ४; मीस् ४,  
३, ८; १०, ३, ५०; ११, १, ३४;  
-त्वे मीस् ४, ४, ३४; १०, ५,  
१७; -त्वेन वृदे १, ९५; २,  
२८××; मश्र; या १३, १२;  
-त्वेषु वृदे ३, ४९; -त्वेः ऋपा  
११, ६४.  
पृथक्त्व-तस्(:) शाश्रौ १, १७,  
८.  
पृथक्त्व-निर्देश- -शः पावा १,  
३, ९.  
पृथक्त्वनिर्देशा( श-आ )नर्थ-  
क्य- -क्यम् पावा ८, १, ८.  
पृथक्त्व-निवेश- -शात् मीस् २,  
२, २१.  
पृथक्त्वा(त्व-अ)भिधान- -नात्  
पावा १, २, ५८.  
पृथक्-द्रक्षि( राा > )ण<sup>क</sup>- -णानि  
हिश्रौ १३, ३, ११.  
पृथक्-पात्र- -त्राभ्याम् आपश्रौ ३,  
३, १०; -त्रेषु काश्रौ १५, ४,  
२४; हिश्रौ २३, १, ४४; -त्रैः  
आपश्रौ १२, २१, २२.  
पृथक्-पाद- -वेषु कौस् १७, १४;  
६४, ३; १९.  
पृथक्-पृथक्-स्तुति- -ति वृदे ३,

४०.  
पृथक्-प्रण(व >)वा- -वे आश्रौ  
५, ५, २.  
पृथक्-शतमान- -नौ हिश्रौ २४  
२, ६.  
पृथक्-शायिन्- -यिनः विध १९,  
१७.  
पृथक्-शौच- -चा: शंघ २०८.  
पृथक्-संस्था- -स्थाभिः आश्रौ १०,  
५, ९.  
पृथक्-संज्ञा-करण- -णात् पावा १,  
१, ६२.  
पृथक्-संभार्य- -र्यै कौस् ३४, ८.  
पृथक्-सहस्र- -त्वाभ्याम् अश्र १९,  
२२<sup>क</sup>.  
पृथक्-सूक्त- -क्तेषु वृदे ३, ६०.  
पृथक्-स्तुति- -ति: वृदे ४, ४२.  
पृथक्-स्तुति- -ति वृदे ३, ४२;  
४३.  
पृथक्-स्तोत्र- -त्रेभ्यः आश्रौ ५, ३,  
५; लाश्रौ २, ७, ४.  
पृथक्-स्तोत्रीया- -यासु निस् ८,  
१: २४.  
पृथग्-अनुबन्धत्व- -त्वे पावा १,  
२, १.  
पृथग्-अर्थ- -र्थानाम् पावा २, १, १.  
पृथगर्थ-त्व- -त्वात् मीस् ४, १,  
८; ९, २, ८.  
पृथग्-अवसानो(य >)या- -याभिः  
वाश्रौ ३, २, २, ४८.  
पृथग्-असमासा(स-अ)र्थ- -र्थम्  
पावा २, १, ४.  
पृथग्-आदि- -दिषु पावा २, ३,  
३२.  
पृथग्-आदेश-प्रतिषेधा(ध-अ)र्थ-

a) वैप १ द्र. ।

b) पाभे. वैप १, २०९३ g द्र ।

c) वैप २, ३खं. द्र. ।

d) पाभे.

पृ १६३२ b द्र. । e) विप. । वस. ।

f) पाभे. वैप १, २०३६ h द्र. ।

g) तु. या ७, ५ । h) क्प्रक इति

जीसं. । i) उप. = २दक्षिणा- ।

-र्थम् पावा ६, १, ८३.  
 पृथग्-आहुति<sup>a</sup> -ती गोय ४, ८, ८.  
 पृथग्-इष्टि- -ष्टिपु द्राश्रौ १२, ४, ७;  
 लाश्रौ ४, १२, ७.  
 पृथग्-ओदन<sup>a</sup> - -नेषु कौसू ६५, ४.  
 पृथग्-ग्रहण- -णम् पावा ३, ३, ४३.  
 पृथग्-वो (<हो)म<sup>a</sup> - -मात् लाश्रौ  
 ९, १२, ३.  
 पृथग्-जन<sup>a</sup> - -नाः शेष २०८.  
 पृथग्-जनपद- -दे द्राश्रौ ३, ३, २२;  
 लाश्रौ १, ११, १३.  
 पृथग्-दधि- -धिनी वैश्रौ ८, ९, १२.  
 ?पृथग्-दशरवृकदपिः शैशि २४८.  
 पृथग्-देव(ता>)त<sup>a</sup> - -ताः वृदे  
 ४, १२४.  
 पृथग्-धर्म-विद्<sup>b</sup> - -विदः गौध  
 २८, ५०.  
 पृथग्-भाव- -वम् शैशि ३१४;  
 -वस्य या ४, २५; -वात् मीस्  
 ७, २, २; -वे अप ४८, २८.  
 पृथग्-भू(त>)ता- -ते अप २३,  
 २, ४; काश्रु २, ११; आपश्रु.  
 पृथग्-लक्ष(ण>)णा<sup>a</sup> - -णाः  
 काश्रौ १६, ४, ६.  
 पृथग्-वर्ण- -र्णानाम् द्राय २, ५, ३.  
 पृथग्-वपट्का(र>)रा<sup>a</sup> - -रे  
 आश्रौ ५, ५, ४.  
 पृथग्-वाता(त-अ)दर्शन- -नात्  
 पावा ४, २, ४९.  
 पृथग्-त्रि(घा>)घ<sup>a</sup> - -घाः अप

४७, १, ९; -घैः कप्र १, १, १४;  
 अप १९<sup>३</sup>, १, ५.  
 पृथग्-विना-नाना- -नाभिः पा २,  
 ३, ३२.  
 पृथग्-विभक्ति-प्रतिषेधा(घ-अ)  
 र्थ- -र्थम् पावा १, २, ६४.  
 पृथक्-विभक्ति-संश्रय(शि-अ)नुचा-  
 रणा(ण-अ)र्थ- -र्थः पावा १,  
 ३, १०.  
 पृथग्-विभक्त्यु(क्ति-उ)पलट्घि-  
 -ट्घिः पावा १, २, ६४.  
 पृथग्-विभाषित- -तम् अप २ : ६.  
 पृथ-मात्र- प्रभृ. √पृथ् द.  
 पृथवी- पाठ १, १५०.  
 \*पृथस्- √\*पृथ् द.  
 पृथा<sup>c</sup> - (>२पार्थ- पा.) पाग ४, १.  
 ११२.  
 १पृथि- पाठमो २, १, २६८.  
 २पृथि<sup>d</sup> - > ३पार्थ<sup>e</sup> - -र्थः<sup>f</sup> ऋअ २,  
 १०, ९३<sup>३</sup>; वृदे ३, ५७; -र्थानाम्  
 काश्रौ १५, ५, ३; ३४; -र्थानि  
 काश्रौ १८, ५, ३; आपश्रौ १८,  
 १५, ८; १६, १; वीश्रौ.  
 ४पार्थ<sup>e</sup> - -र्थम् द्राश्रौ ८, ३, ५;  
 १७; लाश्रौ ४, ७, १; क्षुस् १,  
 ८ : १०; ३. ७ : १२; निस्; -  
 -र्थस्य लाश्रौ ९, ५, १९; निस्  
 ८, १३ : ३७; ४२.  
 पार्थ-वाम<sup>l</sup> - -मे द्राश्रौ ८,  
 १, २३; लाश्रौ ४, ५, २०.

पार्थ-लौश-शार्गी- -गौणि  
 निस् २, १ : ३३.  
 पृथि-सर्व<sup>l</sup> - -वः वीश्रौ १८, ६ :  
 २२; २४, ११ : २; -वेत् आपश्रौ  
 २२, २५, १४; वीश्रौ १८, ६ :  
 १; १५; हिश्रौ २३, ४, ९.  
 पृथिवी<sup>d</sup> - पाठ १, १५०; पा, पाग ४,  
 १, ४१; पाग ४, १, ८६; -णं वि  
 आश्रौ ८, १४, १८; शाश्रौ १,  
 ५, ९; ९, २८, १३; काश्रौ; हिश्रौ  
 ११, ७, ५१<sup>३</sup>; या ९, ३२<sup>३</sup>; ११,  
 ३७; -ण्वी आश्रौ १, २, १;  
 २, ९, १४××; शाश्रौ १०, १७,  
 ४<sup>१</sup>; काश्रौ; आपश्रौ १६, ५, ११<sup>m</sup>;  
 वीश्रौ १०, ७ : १२<sup>m</sup>; वैश्रौ १८,  
 २ : ४<sup>m</sup>; हिश्रौ ११, १, ६५<sup>m</sup>; कौण्ट  
 ३, १५, ५<sup>n</sup>; द्राय ३, १३, ५<sup>n</sup>;  
 हिश्रु २, ११, ४<sup>१०</sup>; गोश्रु २, १,  
 ६<sup>n</sup>; या १, १३; १४; ३, २१××;  
 ७, २४<sup>n</sup>; -वीः अप २ : १२<sup>n</sup>;  
 -ण्वीम आश्रौ १, ६, १; २, ७,  
 ११; १०, २१; ३, ३, १<sup>१</sup>; शाश्रौ ५,  
 १७, ३<sup>१</sup>; काश्रौ ६, १, ३३<sup>f</sup>;  
 आपश्रौ १६, ७, ३<sup>१</sup>; १८, ६<sup>१</sup>;  
 माश्रौ ३, ५, १४; वाश्रौ २, १,  
 २, ९<sup>१</sup>; वैश्रौ १८, ४ : २०<sup>१</sup>;  
 हिश्रौ ११, २, ५<sup>१</sup>; या १, ४; २,  
 ९९××; १०, २७<sup>१</sup>; -ण्व्या  
 आश्रौ १, ७, ७<sup>३</sup>; शाश्रौ; काश्रौ  
 ७, ४, ३३<sup>v</sup>; वीश्रौ २, १० : ३<sup>n</sup>;

a) विप. । वस. । b) उप. < √विद् (ज्ञाने) । c) व्यप. । व्यु. ? । d) वैप १ द. । e) = (अमये स्वाहेत्यादि-) मन्त्र-, (उपचारतः) हविस्- । शेषं वैप १, २०९६ k द. । f) = ऋषि-विशेष- । g) पाठः ? (तु. ऋ १०, ९३, १५; मूको. च पार्थ्व्यः इति; वैतु. सा. पङ्गुसहस्रप्यथ यनि. < पृथु-इति) । h) = साम-विशेष- । तेनदृष्टायः अण् प्र. । i) द्रस. । j) = याग-विशेष- । k) ष्वी इति पाठः ? यनि. श्लोघः ( तु. सप्र. तै ४, २, ९, ४) । l) पामे. वैप १, २०९७ i द. । m) वैप १, २०९७ f द. । n) सपा. पृथिवी <> पृथिव्या इति पामे. । o) सङ्घत् सपा. पृथिवी, समा <> पृथिवीसमम् इति पामे. । p) पामे. वैप २, ३ खं. भूमिः तैत्रा १, ५, ५, १ टि. द. । q) पामे. वैप १, १५८५ a द. । r) पामे. वैप १, २०९७ d द. । s) पाठः ? । पामे. वैप १, २१०४ k द. । पामे. वैप १, २०९९ g द. । u) पामे. वैप १, २०९८ e द. । v) पामे. वैप १, २१०० d द. ।

४, १ : २३<sup>a</sup>; १०, २९, १३<sup>b</sup>; २८, ९ : १६<sup>b</sup>; माथ्रौ १०, १२, १९<sup>a</sup>; वैथ्रौ १२, ११ : १४<sup>a</sup>; १४ : १३<sup>b</sup>; २२, २ : २<sup>b</sup>; हिथ्रौ १०, ३, १७<sup>a</sup>; आपमं २, १९, ४<sup>b</sup>; आम्रिद्य ३, १, १ : १६<sup>b</sup>; वौद्य २, ११, २६<sup>b</sup>; भाद्य २, ११ : १४<sup>b</sup>; ह्रिद्य २, १०, ७<sup>b</sup>; या २, ७; -<sup>क</sup>व्याः आथ्रौ १, १३, १; २, १०, ७××; शाथ्रौ; आपथ्रौ १२, २२, ८<sup>a</sup>; माथ्रौ १, २, ४, ९<sup>a</sup>; ६, २३<sup>b</sup>; २, १, २, ७<sup>a</sup>; वाथ्रौ १, ३, १, ३२<sup>a</sup>; ३, २७<sup>b</sup>; माद्य १, ११, ६<sup>a</sup>; १४, १६<sup>b</sup>; चाअ १ : ११<sup>b</sup>; ८ : ७<sup>b</sup>; १६ : २३<sup>b</sup>; २६<sup>b</sup>; २८<sup>b</sup>; या २, ५; १४××; ६, १७<sup>a</sup>; -<sup>क</sup>व्याम् आथ्रौ २, २, ४; ४, १४<sup>a</sup>××; शाथ्रौ २, ६, ७; ४, १२, ४<sup>k</sup>××; काथ्रौ; आपथ्रौ ६, १२, ४<sup>a</sup>; ९, ४, १<sup>a</sup>; १४, ३१, ४<sup>m</sup>; १५, ४, ७<sup>n</sup>; कौसू ५, ८<sup>o</sup>; ५९, १६<sup>o</sup>; अद्य ४, ३९<sup>o</sup>; या ६, ३६; ७, ५××; -<sup>क</sup>व्यै आथ्रौ २, ३, ८; ३, ८, १; ४, ५, ७<sup>p</sup>××; शाथ्रौ; काथ्रौ २, ६, ८<sup>a</sup>; ४, १४, २८<sup>a</sup>; आपथ्रौ २, १, ५<sup>a</sup>; १६, २९, २<sup>a</sup>; २०, १२, ८<sup>o</sup>; द्राथ्रौ १४, २, ६<sup>p</sup>; लाथ्रौ; वैताथ्रौ १३, २४<sup>p</sup>; २०, १३<sup>q</sup>.  
२पार्थिव<sup>r</sup>- पा ४, १, ८६; ५, १,

४१-४३; पावा ४, १, ८५; -वः आपथ्रौ १७, ८, ४<sup>r</sup>; वैथ्रौ १९, ५ : ४६<sup>r</sup>; द्राथ्रौ; -वस् आथ्रौ ३, ३, १; ४, ६, ३; शाथ्रौ; या ९, २९<sup>r</sup>; -वस्य आपथ्रौ १६, ६, ४; २२, ७, ११; माथ्रौ; या ६, २२; -वा हिथ्रौ ३, २, ५६<sup>r</sup>; -वाः आपथ्रौ ५, २, २; ६, ३; वौथ्रौ; -वान् आपथ्रौ ५, १, ४; ५××; वौथ्रौ; या १४, ५; -वानाम् वैथ्रौ १, ९ : १०; हिथ्रौ ३, ३, ३३; कौद्य; -<sup>क</sup>वानि आपथ्रौ २, १, ३<sup>s</sup>; वौथ्रौ १, १० : १९<sup>s</sup>; माथ्रौ २, १, ४<sup>s</sup>; वाथ्रौ १, १, २, २०; हिथ्रौ १, ६, ६१<sup>s</sup>; ६, २, २<sup>s</sup>; शुअ; -वाय माथ्रौ १, २, ४, ५<sup>t</sup>; ह्रिद्य २, १६, ४; -<sup>क</sup>वासः वौपि २, १२, २; भाद्य ३, १७ : ४; जैद्य २, १ : २५; या १२, ४५; -वेन या २, १०; -वेभ्यः <sup>क</sup>वौथ्रौ ७, ५ : ४१; ६ : २७; जैथ्रौ १० : ७; -वेषु आपथ्रौ १६, ३०, १<sup>t</sup>; वैथ्रौ १८, २ : ३४<sup>t</sup>; हिथ्रौ ११, ८, ४<sup>t</sup>; अप ७१, १७, २; -वैः आपथ्रौ १४, १७, १<sup>t</sup>; हिथ्रौ १५, ५, १<sup>t</sup>; अप ५, १, २; ३७, १, ६<sup>t</sup>.  
पार्थिवी- वी अप ६५, २, १२; अशां १६, १; ऋअ २,

१, २२; वृदे २, ७२××; शुअ १, ५५९; -वीः आपथ्रौ<sup>u</sup> ५, १२, २; १३, ८; १५, ६; वौथ्रौ; -वीम् अशां १७, ५; शुअ ४, ५७; -व्याम् अशां १८, ८; १९, ८.

पार्थिव-चन्द्र- पाग २, १, ५६.

पार्थिव-मण्डल- लानाम् अप ७०<sup>u</sup>, ११, ११; १२.

पार्थिव-मध्यम<sup>u</sup> -मौ वृदे १, १०१; ३, ११; ५, ४८.

पृथिवि<sup>r</sup>->पृथिवि-क्षित्<sup>r</sup>-

-क्षिते<sup>v</sup> आपथ्रौ २०, २, १; वौथ्रौ १५, २ : ९; हिथ्रौ १४, १, १३.

<sup>क</sup>पृथिवि-द्रा<sup>r</sup>- द्राः आपथ्रौ १७, ५, १६; वैथ्रौ १८, २१; १७; हिथ्रौ ११, ८, १०.

<sup>क</sup>पृथिवि-पद् - पद्भ्यः<sup>w</sup> आपथ्रौ १, ९, ६; हिथ्रौ २, ७, ३०; ह्रिद्य २, १२, ४; कौसू ८७, ८.

<sup>क</sup>पृथिवि-सद् - सद्मं शुप्रा ३, ८३<sup>r</sup>.

<sup>क</sup>पृथिवि-सृष्ट- सृष्ट्क् वौथ्रौ ९, १० : ६.

<sup>क</sup>पृथिवी<sup>r</sup> आथ्रौ ३, ८, १<sup>z</sup>; शाथ्रौ ८, ३, ११; वौथ्रौ ८, १३ : १७;

ऋअ २, १, १५९; ७, ५३; या ९, ३८; तैप्रा ४, १९.

<sup>क</sup>पृथिवी-क्षित्- क्षित्तः वाधूथ्रौ

- a) पामे. वैप १, २१०० a द्र. । b) पामे. पृ १६३४ n द्र. । c) पामे. वैप १, २१०० b द्र. ।  
d) पामे. वैप १, २१०३ c द्र. । e) पामे. वैप २, ३खं. पृथिव्यै तैत्रा ३, ७, ५, ३टि. द्र. । f) पामे. वैप १, १२७६ f द्र. ।  
g) पामे. वैप १, २१०२ c द्र. । h) = ऋषिका- । i) पामे. वैप १, २१०० g द्र. । j) सपा. व्याम् <>व्यै इति पामे. । k) पामे. वैप १, २०९८ h द्र. । l) पामे. वैप २, ३खं. पृथिव्याम् तैत्रा ३, ७, ३, ६ टि. द्र. ।  
m) पामे. वैप २, ३खं. पृथिव्याम् तैत्रा ३, ७, १०, १ टि. द्र. । n) पामे. वैप १, २०९७ f द्र. । o) पामे. वैप १, २१०२ l द्र. । p) पामे. वैप १, १५७६ a द्र. । q) पामे. वैप १, २१०१ f द्र. । r) वैप १ द्र. ।  
s) पामे. वैप १, २१०३ m द्र. । t) पामे. वैप १, २१०२ j द्र. । u) = अग्नि-द्वय- । v) पामे. वैप १, २१०४ c द्र. । w) पामे. वैप १, २१०४ i द्र. । x) पामे. वैप १, २१०४ h द्र. ।

३, ५१ : २; -चित्ते काश्रौ ४,  
१४, २८.  
पृथिवी-गत- -तान् वैगृ ५, १४ :  
७; -तेभ्यः वैगृ २, २ : १०; १,  
५, १४ : १४.  
पृथिवी-जात- -ताः वृदे ७, ७२.  
पृथिवी-दान-फल- -लम् विध  
८८, २.  
पृथिवी-नामधेय- -यानि निघ १,  
१; या २, ७.  
पृथिवी-पति- -तिः अप ४, २, १२;  
६८, ५, १९; -०ते विव ९८, २३.  
पृथिवी-प्र- -प्रः अत्र १३, २; १.  
पृथिवी-मध्य- -ध्यस्य पावा ४,  
२, १३८.  
पृथिवी-लोक- -कः हिपि ७ : ६;  
-केन कौगृ १, १०, १; शां १,  
१६, ३.  
पृथिवी-शरीर- -रम् वौपि ३, ७, ३.  
पृथिवी-शायिन्- -यी वैष १, ७, ८.  
पृथिवी-पद्- -पदे भागृ २, २९ :  
१२; १३; ३० : २; -पद्भ्यः<sup>०</sup>  
वौश्रौ २४, ३२ : १३; भाश्रौ १,  
९, १; माश्रौ १, १, २, २२; वाश्रौ  
१, २, ३, १९; आमिगृ ३, १, ३ :  
९; गोगृ; जैगृ २, २ : १०.  
?पृथिवीष्टका अप ३६, ९, ३; १.  
पृथिवी-सप्त- -सप्त आमिगृ ३,  
१, २ : १४; २, ३ : ३; वौध २, ८,  
१२.  
पृथिवी-स्थान- -नः या ७, ५; १४;  
-नम् वृदे १, १०५; -नाः या

१२, ४१.  
पृथिव्य(वी-अ)नि- -नी अत्र ४,  
३९.  
पृथिव्य(वी-अ)ग्न्या(मि-आ)अय-  
-यः वृदे १, १२०.  
पृथिव्य(वी-अ)न्तरिक्ष-दैवत- -तः  
ऋअ २, ७, १०४.  
पृथिव्य( वी-अ)प्-तेजो-वाय्वा (यु-  
आ)काश-मनो-बुद्ध्या ( द्वि-आ )  
त्मा( त्म-अ)व्यक्त-पुरुष-  
-पाणाम् विध ९७, ७.  
पृथिव्य( वी-अ)प्-तेजो-वाय्वा(यु-  
आ)काशा(श-आ)ःमक- -कम्  
विध ९६, ५१.  
पृथिव्या( वी-आ)त्मन्- -त्मानौ  
काश्रौ २, ६, ७.  
पृथिव्या(व्य-आ) दि-व्यवस्थित-  
-तान् वृदे ७, ५२.  
पृथिव्यां-दैवयजन- -नाः वाधूश्रौ  
४, १८ : २६; २८.  
पृथिव्या(वी-आ)यतन- -नानि या  
७, ११; ९, १.  
२पृथ्वी- पाठ १, १५०; -ध्वी  
शांश्रौ ३, १२, ९; वाध २९,  
१९; निघ; -ध्वीम् आश्रौ ४,  
६, ३; वौश्रौ; या ६, १२; १;  
-ध्व्या भाश्रौ १०, ६, १०.  
पृथ्वी- -थी अत्र ८, १०, ( ४ );  
ऋप्रा १४, ३९.  
१पृथु- √\*पृथ् द्र.  
२पृथु- -थुः ऋअ २, १०, १४८;  
साश्र १, २१६.

५पार्थ- -०र्थ आश्रौ १२, १०,  
११; आपश्रौ २४, ६, ८; वौश्रौ  
८ : २; हिश्रौ २१, ३, ७; वैष ४,  
२, ६; -थीः आपश्रौ २४, ६, ७;  
वौश्रौ ८ : १; हिश्रौ २१, ३, ७.  
पृथु-वत् आपश्रौ २४, ६, ८; वौश्रौ  
८ : २; हिश्रौ २१, ३, ७; वैष ४,  
२, ६.  
पृथुक- पाठ ५, ५३; पाग ५, १, ४;  
-कान् आपश्रौ २०, १०, ५; हिश्रौ  
१४, ३, ३; -कानि वाश्रौ ३, ४, २, ४  
पृथुक-चर्मन्- -र्माणि वौश्रौ १५,  
१६ : ३.  
पृथुकीय- , पृथुक्य पा ५, १, ४.  
पृथुकेशस्तुका- प्रथु. १पृथ्वी-  
√\*पृथ् द्र.  
पृदाकु- पाठ ३, ८०; -कः शांश्रौ  
१२, १८, ८; -कुः आपश्रौ १३,  
१८, ७; हिश्रौ १०, ५, १; आपमं २,  
१७, १५; -कुम् अत्र ३, २६;  
-कोः अत्रा ३, ३, ६; -कौ वौश्रौ १८, ८ :  
१८; २६, ३० : १९; आमिगृ  
२, ४, ४ : ११; वौध ३, ७, ११.  
?पृदाक्वा-<sup>०</sup> अत्रा १, ३, १४; १.  
पृदाकु-सानु- -नुः ऋप्रा ५, २७; १.  
?पृदाकुनि वौश्रौ २, ५ : ११.  
पृशान- > पृशाना(न-आ)दि- -दयः  
ऋप्रा ९, १३.  
√पृशानाय > पृशानायु- -युवः  
ऋप्रा ९, १६.  
१पृश्नि- पाठ ४, ५२; फि ३३;

- a) वैप १ द्र. । b) तु. पाम. । c) पामे. वैप १, २१०४ i द्र. । d) विप. (अन-) ।  
e) ०थी स० इति पाठः? यनि. शोधः ( तु. वौध. ) । पामे. पृ १६३४ ० द्र. । f) विप. । वस. ।  
g) विप. । वस. > वस. । h) विप. । दस. > वस. । i) दस. > वस. । j) = ऋपि-विशेष- ।  
व्यु. ? । k) अवत्यायें ढण् प्र. उंस. (पावा ४, १, १७१ ) । l) = विपिटक- । व्यु. ? < √ प्रय  
इति प्रायोवादः । m) = अर्भक- । n) पामे. वैप १, २१०५ g द्र. । ० इति पाठः? यनि. शोधः ।  
o) वैप १, २१०५ k द्र. ।

-कक्षयः काश्रौ २२, ९, १३;  
 आपश्रौ २०, १४, ७; ९; वौश्रौ;  
 ऋश्र २, ९, ८६; साश्र २, १७३;  
 उनिसू ८ : १२; -क्षये वृदे ५,  
 ११४; -क्षि निसू ३, १० : ६<sup>०</sup>;  
 आपमं २, ११, २०; पाश्र १,  
 १६, २; -क्षिः आश्रौ ४, ६, ३;  
 ६, १०, १६; ८, १३, ६; शाश्रौ;  
 या २, १४६; -दिनाकाश्र २९,  
 ११; -दिग्भिः वौश्रौ २५, १७:  
 १८; -दिग्भ्याम् आपश्रौ २१,  
 १३, १५; -दिग्भ्यः काश्रौ १४,  
 २, ११; आपश्रौ १८, २१, १३;  
 २१, २३, १२; वौश्रौ; -कृदिन्यै  
 वौश्रौ ८, ३ : २; १३, २० : ७;  
 वैश्रौ १६, ३ : ९; -इनी आपश्रौ  
 २१, १३, १४; १६; -इनीः  
 आपश्रौ २२, २०, ११; वौश्रौ;  
 -श्रीन् आपश्रौ २२, २०, ११;  
 -श्रीनाम् वौश्रौ १४, १३ : १;  
 -कृभेः शाश्रौ ८, १७, १; वौश्रौ;  
 -श्री वैश्र १, १४ : १२; -इन्याः  
 चाश्र १ : १०; १५.  
 पृश्नि-नर्भ, भर्भ<sup>०</sup> -र्भम् विष १,  
 ५९<sup>०</sup>; -कृर्भाः आश्रौ ४, ६, ३;  
 ५, १८, ५; या १०, ३९६.  
 पृश्नि-ग्रह-हाणाम् आपश्रौ २१,  
 १३, ८<sup>०</sup>; वौश्रौ २३, ६ : ६;  
 -हैः वौश्रौ २३, १९ : ३५.  
 पृश्नि-ज<sup>०</sup> -जाः अप ४३, ५, ५९<sup>१</sup>.  
 पृश्नि-प(रु)र्ण<sup>०</sup> -र्णं अप  
 १८, १, १७; ३२, १, ३१; -र्णम्  
 आश्रिगृ ३, ५, ५ : ६; वौषि;

-पर्या कौसू ८, २५.  
 पृश्नि-प्राण-ग्रह<sup>१</sup> -हान् आपश्रौ  
 २१, १३, ७; हिश्रौ १६, २, ९.  
 पृश्नि-मन्थ-न्थः कौसू ११, १५.  
 पृश्नि-मातृ<sup>१</sup> -तरः शाश्रौ ८, २३,  
 ११; आपश्रौ १४, १६, ११;  
 हिश्रौ १५, ५, ११; अप्राय ६,  
 १; वृदे ५, ७१.  
 पृश्नि-मान-नानि हिश्रौ १६, २,  
 ९<sup>०</sup>.  
 पृश्नि-वर्ण<sup>०</sup> -र्णम् ऋप्रा १७, १५.  
 पृश्नि-वा(ल)ला<sup>०</sup> -ला आपश्रौ  
 १०, २२, ४; हिश्रौ ७, २, १६.  
 पृश्नि-वा(फ)फा<sup>०</sup> -फा आपश्रौ  
 १०, २२, ४; हिश्रौ ७, २, १६.  
 कृपृश्नि-सक्य<sup>०</sup> -क्यम् तैप्रा ६, १२;  
 -क्याः वौश्रौ १५, ३८ : १२.  
 पृश्नि-सूक्त-क्तम् ऋश्र २, ६, ४८;  
 -क्ते वृदे ५, ११३.  
 पृश्नि-शिन-श्र-इमच्-इमा काश्रौ  
 १८, ६, ८; -इमानम् काश्रौ १८,  
 ३, २०.  
 २पृश्नि<sup>१</sup> -श्रीनाम् चाश्र १७ : ९.  
 पाइर्थ-इर्थस्य चाश्र १६ :  
 ४; ५.  
 ✓पृप् (वधा.) पाधा. भ्वा. पर. सेचने  
 हिंसासंक्लेशनयोश्च > पृपत्<sup>०</sup>-  
 पाठ २, ८४; पाग २, १, ५६<sup>१</sup>;  
 -पत् माश्रौ १, ७, १, ३०; ऋप्रा  
 १७, १७; -पता काश्रौ ७, ८,  
 २५; आपश्रौ; -पन् काश्रौ १५,  
 ३, १६; ९, ५; -पन्तः आपश्रौ  
 २०, १४, १४; वौश्रौ १५, ३८ :

१२; हिश्रौ १४, ३, १८.  
 पृपती<sup>०</sup> -कृतयः<sup>१</sup> आपश्रौ  
 ३, ६, ६; वौश्रौ १, १९ : २६;  
 भाश्रौ ३, ६, १; -ती काश्रौ १५,  
 ९, १४; माश्रौ ५, २, १, १८;  
 कौसू २४, ४२<sup>३</sup>; -तीः वौश्रौ  
 १८, ११ : ६; -तीनाम् वौश्रौ  
 ४, ३ : ३८<sup>३</sup>; वाश्रौ १, ६, २,  
 १४<sup>३</sup>; -तीभिः वैताश्रौ ३१,  
 २७; -तीम् कौसू २४, ४३; -त्यः  
 अप ४८, ९४; वृदे ४, १४१; निष  
 १, १५; -त्या कौसू २४, ४४;  
 -त्याः हिश्रौ २२, ४, २०.  
 कृपृपद्-अश्रव<sup>०</sup> -श्वाः आपश्रौ  
 १४, १६, १; हिश्रौ १५, ५, १;  
 काश्र ५८, २; अप्राय ६, १;  
 -श्वानाम् आश्रौ १२, ११, १.  
 पार्पदश्च-०श्वः आश्रौ  
 १२, ११, १<sup>३</sup>; आपश्रौ २४, ८, ५;  
 ६; वौश्रौ २४ : ४.  
 पृपदश्च-वत् आपश्रौ २४, ८,  
 ५; ६; वौश्रौ २४ : ५.  
 पृपद्-जाज्य<sup>०</sup> -ज्यम् आश्रौ ६,  
 १०, ५; काश्रौ ५, ४, २४; ६, ६,  
 २०; आपश्रौ; -ज्यस्य काश्रौ ६,  
 ८, ४; १७; आपश्रौ; -ज्यात् वौश्रौ  
 ४, ९ : २८; २०, ३० : १३; वैश्रौ  
 १०, १९ : १७; -ज्याय वौश्रौ  
 ४, १ : ६; ५, १ : ५×५; माश्रौ;  
 -ज्ये आपश्रौ ८, २, ८; ६, ९;  
 ९, १७, २<sup>३</sup>; वौश्रौ; -ज्येन शाश्रौ  
 ४, १४, ३५; आपश्रौ ७, २३, ७;  
 काठश्रौ; गौषि २, ७, ३२<sup>०</sup>.

a) = साम-विशेष-। b) वैप १ द्र.। c) विप. > नाप. ( विष्णु- )। विशेषः मभा १२, ३४१, ४४  
 द्र.। d) सपा. पृश्निग्रहाणाम् <> पृश्निमानानि इति पाभे.। e) = पितृ-विशेष-। उरस.। f) द्रस. > पस.।  
 g) विप. ( वैराज- [ = सामविशेष- ] )। वस.। h) विप.। वस.। i) व्यप.। व्यु. ?। j) °त- इति पाका.।  
 k) वैप १, २१०७ m द्र.। l) पाभे. वैप १, २१०७ n द्र.। m) वप्रा.। विप., व्यप.। n) वहु. < पार्पदश्च-।  
 o) पृज् इति पाठः ? यनि. शोधः।

पृषदाज्य-ग्रह ( रा > ) जी-  
जीन् वौश्रौ ४, ३:३१;३४; ५,  
२: ५; ८xx; वैश्रौ १८, ३: २:  
वौषि ३, ३, १२; -प्यान् वौश्रौ  
४, ३: ३५; -ण्यै वौश्रौ २०,  
२६: २८.

पृषदाज्य-धा(न >) नी- नी  
वाश्रौ ३, ६, २, ११; वैश्रौ ८, ४:  
२; -नीम् आपश्रौ ७, ८, ३;  
७xx; भाश्रौ: -न्या: माश्रौ १,  
७, १, २८; ३३; -न्यान् आपश्रौ  
७, ९, २; ८, २, ८; ६, ९; भाश्रौ:  
-न्यो: भाश्रौ ८, ७, २.

पृषदाज्य-धर्म- नै: वाश्रौ  
१, ६, २, १२<sup>११</sup>.

पृषदाज्य-प्रणुत्त-  
-त्तानान् शौच ३, ६५.

पृषदाज्य-वत् सीत् ५, ३, १;  
१०, ६, ६४; ७, ६४.

पृषदाज्य-वत्- वन्ति वौश्रौ  
५, २: ९; ५: ३६xx; नाश्रौ.

पृषदाज्यवती- तीम्  
काश्रौ २५, ७, ३१.

पृषदाज्य-स्कन्दन- ने काश्रौ  
२५, ६, ३; ७.

पृषदाज्य-लुव- वन् हिश्रौ  
४, ४, ७३; ५, २७.

पृषदाज्या(ज्य-अ)र्थ- र्थम्  
हिश्रौ ४, २, ३१.

पृषदाज्या(ज्य-अ)वकाश-  
-शो वौश्रौ ४, ६: ३४; ११, ४:  
१८; १५, २८: २८.

पृषदाज्या(ज्य-अ)वैक्षण-

-णम् शाश्रौ ५, १७, १२.

पृषद्-वस्त-वय<sup>b</sup>- -यम् वाष  
२१, २३.

पृषद्-व(त्त >)त्ता- -त्तायै  
हिश्रौ २२, ४, २०.

पृषोत्या, द्वा<sup>c</sup>ण- पा, पाग ६, ३,  
१०९.

पृषोदर<sup>d</sup>- पा, पाग ६, ३, १०९;  
-र: हिश्रौ १४, ३, १४; -रन्  
आपश्रौ २०, १३, १२; वौश्रौ  
१५, २३: ७; २६: ८.

पृषोदरा(ति-आ)दि- दीनान्  
ऋत ४, ३, ६.

पृषत<sup>e</sup>- पाठ ३, १११; पाग २, १,  
५६<sup>f</sup>; वौश्रौ २६, ११: २२; वा  
२, २; -त्तम् नाश्रौ ६, १, ७, २२;  
-ता: अप ७१, ३, ३.

पार्षत<sup>f</sup>- -त्तम् शौच २२२;  
-तेन विष ८०, ८.

पृषता(त-अ)न्त<sup>h</sup>- -न्तान् काश्रौ  
२०, ६, ६.

पृषित- पाठसो २, २, १४३.

पृषित-नात्र- -त्रे वौश्रौ २०,  
२६: ३७.

पृष- (> पार्ष-) पृषदंश- टि. द्र.  
पृषत्- √पृष द्र.

पृषदंश<sup>i</sup>- (> पार्षदंश- पा.) पाग  
४, १, ८६.

पृषदश्व- प्रन्. √पृष द्र.  
पृषध<sup>j</sup>- -अ: ऋअ २, ८, ५६; साअ १,  
४४, ७; -धस्य वृदे ६, ८५; -अ

शाश्रौ १६, ११, २६.

पृषातक<sup>k</sup>- -क: नाग २, ३, ६; -कम्  
आग २, २, ३; नाग २, ३, ५<sup>l</sup>;  
गोग; -कस्य वौश्रौ ४, ३, २; शाग  
४, १६, ३; आग ५, ८, २; ५;  
-का: पाग २, १६, १<sup>m</sup>; -कानि  
आश्रौ ८, ३, २१; शाश्रौ १२,  
२३, ३; वैताश्रौ ३२, २, ५; -काय  
आग २, २, २; ३; -के गोग ३,  
८, १; -केन वौश्रौ ४२, १५.

पृषातक-प्रेषण- -णयो: वप्र ३, ९, ८.

पृषा<sup>n</sup> ऋषा ४, ६३<sup>o</sup>.

पृषृ- √पृच्छ द्र.

पृषृ<sup>p</sup>- -ष्ट: आश्रौ २, १५, २<sup>q</sup>; ८,  
१०, ३; शाश्रौ: वा ७, २३.

पृषृ<sup>r</sup>- -न: शौच ११६: १७.

पृषृ, पृषृ<sup>s</sup>- -ष्टय: वैश्रौ १३, १७:  
६१; -ष्टीनाम् आपश्रौ १५,  
१५, १; भाश्रौ ११, १५, १३;  
हिश्रौ २४, ६, १२<sup>t</sup>; -ष्टीन्य:  
तैसा ३, ७<sup>u</sup>.

पृषृया(ष्टि-आ)न्य<sup>v</sup>- > ० चिद्-

-थी वा ५, २१<sup>w</sup>ठ्.

पृषृ<sup>x</sup>- पाठ २, १२; पाग ५, २, २४;  
पावाग ३, २, १५; ५, ४, ४४;  
कि १५; -ष्ट: निद् ७, ६: ६;  
-ष्टम् आश्रौ ५, १५, २; ७, ३,  
९xx; शाश्रौ: आपश्रौ १४,  
११, ४<sup>y</sup>; २२, २, २<sup>z</sup>; द्राश्रौ ९,  
३, ८<sup>aa</sup>; वा ४, ३; -ष्टयो:  
आमिग ३, ४, २: १२; वौषि  
३, ३, १२<sup>ab</sup>; वैश्रौ ५, ४: ३४;

a) ष्वमै: इति पाठ: ? यनि. शोष: । b) समाहारे द्वस. । वय- = पश्चिद्- । c) पाठा. पाठ: । d) वैप१  
द्र. । e) विप. (वृम- [माश्रौ.] । शिष्टं वैप १ द्र. । f) पृ १६३७ j द्र. । g) विप. । तस्त्रेदमयि: कण प्र. ।  
h) विप. । वस. । i) अर्थ: व्यु. च ? । पृष, दंशे इति पाठा. । j) र्द-नानन्- । k) = कर्म-विशेष- । l) व्यप. ।  
व्यु. ? । m) वैप१, २१०८ m द्र. । n) सपा. पृष्टय: <> पृष्टीनाम् इति पामे. । o) ष्टी<sup>o</sup> इति पाठ: ? यनि. शोष: ।  
p) पामे. वैप १, २१०८ q द्र. । q) पामे. वैप १, २१०९ m द्र. । r) ष्टयन् इति पाठ: ? यनि. शोष: । त्र. नृधे,  
तां १६, ७, ३; ८. च । s) सप्र. पृष्टम् <> पृष्टयम् इति पामे. । t) प्रतिष्ठयो: इति B. ।

-एस्य काश्रौ १६, २, १८;  
 द्राश्रौ ९, ३, १३; लाश्रौ ३, ६,  
 ३३; ५, १२, ८<sup>a</sup>; वैताश्रौ; -घात्  
 वैताश्रौ २७, ६; छुसू; -घानाम्  
 आश्रौ ८, ७, १०; आपश्रौ २,  
 ७, ९<sup>f</sup>; वैश्रौ; लाश्रौ १, १०,  
 १६<sup>g</sup>; -घानि आश्रौ ८, ४, १८;  
 ५, ११; ७, ५; शाश्रौ; -घानिऽ-  
 घानि छुसू २, १४ : १६; -घा-  
 भ्याम् निसू ४, ६ : ११; -घे  
 शाश्रौ ७, २५, ९; ११, ४, ३××;  
 काश्रौ; वैताश्रौ ३५, १६<sup>h</sup>; या  
 ९, १४; -घेऽ-घे क्षुसू २, ९ :  
 २४; -घेन आश्रौ ८, १४, १५;  
 द्राश्रौ ९, २, ११; लाश्रौ; -घेभ्यः  
 वीश्रौ १४, २९ : ३०; ३५; निसू  
 ६, ६ : २२; ७, ५ : १२; -घेषु  
 आश्रौ ५, १५, ११; द्राश्रौ ९, ३,  
 २; लाश्रौ; -घैः आपश्रौ १७,  
 १२, १०; वैश्रौ।  
 पृष्ठ-काल-ले काश्रौ १२, ३, ७.  
 पृष्ठ-च्छन्दस्-न्दसः निसू ३, १२:  
 ४.  
 पृष्ठ-जाह-पा ५, २, २४.  
 पृष्ठ-तप्-तप् आपध १, २७, १०;  
 हिघ १, ७, ३५.  
 पृष्ठ-तस्(ः) शाश्रौ ४, १४, १४;  
 वीश्रौ १८, ३३ : ७<sup>f</sup>; वाश्रौ।  
 पृष्ठ-त्व-त्वम् निसू ४, ४ : १४;  
 -त्वे निसू ४, ७ : ३; ५, ७ : १२;  
 ८ : २.  
 पृष्ठ-देश-शम् वाश्रौ १, ६, ५, १७;  
 या ४, ३.  
 पृष्ठ-धर्म-मैः निसू ६, ६ : ४.

पृष्ठ-न्यङ्ग-ङ्गाः निसू ६, ९ : ३.  
 पृष्ठ-भक्ति-क्तिः निसू ४, ७ : २<sup>d</sup>.  
 पृष्ठ-भस्मन्-स्म वैश्र १, १२ : ६.  
 पृष्ठ-रोग->गिन्-गी या ५,  
 २१.  
 पृष्ठ-वंश-शः वीश्रु ६ : ७; -शम्  
 आमिगृ २, ४, १ : १९; भागृ २,  
 ३ : १३; हिगृ १, २७, ७; -शे  
 क्रप्र १, १, ३.  
 पृष्ठ-वत् मीसू १०, ५, ७९.  
 पृष्ठ-वाद-दः निसू ८, १० : १४.  
 पृष्ठ-विलोप-पः निसू ८, ७ : १४.  
 पृष्ठ-व्यसन-न्ने वाश्रौ ३, २, २,  
 ४८.  
 पृष्ठ-शब्द-ब्दः मीसू ७, ३, ६; ३४;  
 ३५; -ब्दात् मीसू १०, ६, १३.  
 पृष्ठ-शामन->न-रूप-पम् निसू  
 १०, ११ : २३.  
 पृष्ठशमना(न-अ)र्थ, र्था- र्था  
 निसू ६, १ : ९; -र्थेन निसू  
 १०, १० : ३.  
 पृष्ठशमनीय<sup>o</sup>-यः शाश्रौ १३,  
 १४, ७; काश्रौ १३, ४, ८; आपश्रौ  
 २३, १३, ५; २१, १<sup>f</sup>; निसू ६,  
 १ : ५; १४; -यम् शाश्रौ १३, १४,  
 ८; निसू ६, १ : ८; -येन शाश्रौ  
 १८, २४, २९; आपश्रौ २१, १३,  
 ५; वीश्रौ; -यैः वाश्रौ ३, २, २,  
 ४७; निसू ५, १३ : ४<sup>g</sup>.  
 पृष्ठ-शय-पावा ३, २, १५.  
 पृष्ठ-संयोग-नो हिश्रौ ८, ४, ४.  
 पृष्ठ-संहित-तौ कौसू २७, ९.  
 पृष्ठ-स्तोत्र-त्रम् वैश्रौ १६, ९ : ९.  
 पृष्ठ-स्तोत्रिय->या(य-अ)तुरू-

प-पाः वैताश्रौ ३२, ६; -पौ  
 वैताश्रौ ३१, १८; २३; ३२, १;  
 ३३, ६; ९; १६<sup>h</sup>; २४.  
 पृष्ठ-स्तोत्रीय-येषु द्राश्रौ ८, २,  
 २०; लाश्रौ ४, ६, १६; १०, २,  
 ३; छुसू २, १२; ३; १६; २४.  
 पृष्ठ-स्थ-स्थानि लाश्रौ २, ९, ६<sup>i</sup>.  
 १पृष्ठ-स्थान-नम् निसू २, ९; १३.  
 २पृष्ठ-स्थान-नानि द्राश्रौ ६,  
 १, ९<sup>i</sup>.  
 पृष्ठ-होम-मम् द्राश्रौ ६, १, १;  
 लाश्रौ २, ९, १; निसू २, ४ :  
 ७; १६; -माय द्राश्रौ ४, २, ६;  
 लाश्रौ २, २, १५.  
 पृष्ठा(घ-अ)ग्निष्टोम-सामन्-मनी  
 छुसू ३, ३ : २; -मनोः निसू  
 ५, ९ : ३.  
 पृष्ठा(घ-आ)देश-शम् द्राश्रौ ६, १,  
 ६; लाश्रौ २, ९, ५.  
 पृष्ठा(घ-अ)न्वित-तम् निसू ४,  
 १३ : ३; ७, ९ : ३०; -तानि  
 निसू ४, १२ : १४; १९; -ते  
 निसू ९, २ : २९.  
 ?पृष्ठा (घ-अ)पदान-नात् निसू  
 ७, २ : ६.  
 पृष्ठा(घ-आ)पन्न-नानाम् निसू  
 ७, १३ : ११.  
 पृष्ठा(घ-अ)पाय-यात् निसू ९,  
 १ : २७.  
 पृष्ठा(घ-आ)रूढ-ढः आपध १,  
 ९, २७; हिघ १, ३, २८.  
 पृष्ठा(घ-अ)र्थ-र्थे मीसू १०, ४,  
 ४२; ६, १६; २५.  
 पृष्ठा(घ-अ)स्थि-स्थि विध ९६.

a) सप्र. पृष्ठस्य <>पृष्ठस्य इति पाभे. । b) ष्टा इति पाठः? यनि. शोधः । c) ष्टये इति O. ।  
 d) 'विभ' इति संस्कृतः टि. । e) = क्रतु-विशेष- । तदस्यप्रयोजनमित्यर्थे छ > ईयः प्र. (पा ५, १, १११) ।  
 f) 'ष्य' इति पाठः? यनि. शोधः (तु. पूर्व स्थलम्) । g) 'ष्य' इति पाठः? यनि. शोधः (तु. मूको.,  
 निसू ६, १ : ५ प्रथ.) । h) पाठः? ष्वाः इति शोधः [तु. O.] । i) परस्परं पाभे. । j) विप. । वस. ।

६९.  
 पृष्ठा(घ-अ)हन्-हानि हिश्रौ १७,  
 ८, १६.  
 पृष्ठा(घ-आ)हुति-ती जैश्रौ १७:  
 ३.  
 पृष्टी-रूप<sup>३</sup>-पम् जैश्रौका १७५.  
 पृष्टो(घ-उ)पाच-या: निसू १०,  
 ६: १८.  
 पृष्ठ्य, घ्या<sup>४</sup>-पावा ४, २, ४२; -घ्य:  
 आश्रौ ८, ४, २१; ७, १८××;  
 शाश्रौ; काश्रौ १२, ३, १; द्राश्रौ  
 ९, २, १५; लाश्रौ ३, ६, १६;  
 १०, ३, १३; वैताश्रौ ३१, ७;  
 ९; १२; निसू ९, १:२०; १०:  
 ३६; ३८; १२:२६; १०, ३:२६;  
 -घ्यम् आश्रौ ११, २, २; ७; ७, ४;  
 शाश्रौ; द्राश्रौ ५, ४, १७; ८, १,  
 २६; २, १२; लाश्रौ २, ८, १७;  
 ३, ६, २८<sup>०</sup>; ४, ५, २१; ६, १२;  
 निसू ४, ११: १; ५, ५: २५;  
 १०: २; ८, १३: १; ९, १०:  
 २९; ३१; १२: २१; -घ्यया  
 माश्रौ ५, २, १६, ७<sup>६</sup>; -घ्ययो:  
 काश्रौ २४, १, २८; निसू ९,  
 १३: ४३; -घ्यस्य आश्रौ ७,  
 ५, ४; १०, १××; शाश्रौ; द्राश्रौ  
 १५, ४, १<sup>०</sup>; वैताश्रौ ४२, १;  
 लूसू ३, ११:११; १२:१३; निसू  
 ६, ४:६; -घ्या<sup>६</sup> काठश्रौ ९२;  
 आपशु ५, १२; हिशु २, २३;  
 -घ्या: आपश्रौ २३, ९, १६<sup>१</sup>;  
 वौश्रौ १६, १६: ३; २६, १७:

८; -घ्यात् शाश्रौ १२, ६, ३;  
 १४, ७०, २; काश्रौ; -घ्यान्  
 वौश्रौ २६, १७: ९; -घ्यानाम्  
 आपश्रौ २१, १६, २०; वौश्रौ;  
 -घ्यानि आश्रौ १२, १५, ११;  
 निसू ९, १: २२; १०, ८: ३५;  
 -घ्याम्<sup>६</sup> काश्रौ ८, ३, १२; १९;  
 ४, २५; ६, ५; ९, ७, ६; आपश्रौ  
 ११, ४, १६; ६, ३; काठश्रौ;  
 भाश्रौ १२, ४, १८; माश्रौ २,  
 २, २, ६; १३; वाश्रौ १, २,  
 ४, १; हिश्रौ ७, ४, ४२<sup>१</sup>; ५,  
 १२; ७, ३; वैताश्रौ १८, ३;  
 वौध २, १०, २३<sup>६</sup>; -घ्याया:<sup>६</sup>  
 आपश्रौ ११, ९, ९; काठश्रौ  
 ९८; वौश्रौ २०, ५: १८; माश्रौ  
 २, २, ३, १३; ५, २, १५, २८;  
 वाश्रौ १, २, ४, २; -घ्यायाम्<sup>६</sup>  
 आपश्रौ ११, १४, ४; वैश्रौ १४,  
 १२: ८; हिश्रौ ७, ७, ३०; आपशु  
 १, १२; हिशु १, २२; -घ्यायै  
 वौश्रौ २०, ५: १६<sup>६</sup>; -घ्ये आश्रौ  
 ७, ३, २०; ८, ४, १९<sup>६</sup>; काश्रौ;  
 द्राश्रौ ८, २, ९; ९, १, १; २,  
 १७; लाश्रौ ३, ५, १, ६, १८; ९, १;  
 ४, ६, ८; १०, ४, १६; वैताश्रौ  
 ३१, २५; निसू ४, ५: ११;  
 ५, ६: १७; २३; ९: ११;  
 २२; -घ्येन वौश्रौ १६, २९:  
 १२; १७, २२: २; लाश्रौ;  
 -घ्यौ आश्रौ ११, २, ५; ३, २;  
 ६, १३; शाश्रौ.

पार्श्विक<sup>१</sup>-कान् लाश्रौ ८,  
 ११, ६; -कानि काश्रौ १४,  
 १, ५; ६; २२, ७, १; २४, २,  
 १७.  
 पृष्ठ्य-ग्रह-हाणाम् वौश्रौ २३,  
 ५: २६; ३०; -हान् वौश्रौ  
 २३, ५: २७.  
 पृष्ठ्य-चतुर्थ<sup>१</sup>-र्थम् वैताश्रौ ३८,  
 ७; -र्थान् शाश्रौ १३, १९, ९.  
 पृष्ठ्यचतुर्थ-वत् वैताश्रौ ३३,  
 २२; ३६, २६.  
 पृष्ठ्य-च्छ<sup>१</sup>, छन्दोम-मान् निसू  
 ४, ११: ३<sup>१</sup>; -मानाम् निसू  
 ४, ६: ४; -मेपु वैताश्रौ ३३,  
 १४.  
 पृष्ठ्य-तस्<sup>(ः)</sup> लाश्रौ १०, ४, ४.  
 पृष्ठ्य-न्यह-ह: आश्रौ ९, १,  
 ५; १०, ३, ५; -हस्य वैताश्रौ  
 ४१, ७.  
 पृष्ठ्य-इशरात्र-त्रयो: निसू ६,  
 ४: ६.  
 पृष्ठ्य-पञ्चम<sup>१</sup>-मान् आश्रौ  
 ११, ७, २; शाश्रौ १३, १९, ७.  
 पृष्ठ्य-पञ्चाह-ह: आश्रौ १०,  
 २, ३२; ३, ४; निसू ९, १३:  
 २०; -हस्य वैताश्रौ ४१, १६.  
 पृष्ठ्यपञ्चाह-वर्जम् निसू ५,  
 ५: २१.  
 पृष्ठ्य-पृष्ठ्यस्तोम-मयो: निसू  
 ६, ४: ५.  
 पृष्ठ्य-मध्य-ध्वे आश्रौ ११,  
 २, ९.

a) पू. = पृष्ठ- (तु. जैश्रौ १७: ६) । व्यु. ? । b) वैप२ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र. । स्वार्थे यत् प्र. इत्यत्र विशेषः । c) पामे. पृ १६३८ S द्र. । d) = (वेदिपृष्ठमवा-) रेखा- (तु. काश्रौ ८, ३, १२ आपश्रौ. प्रसू. । - e) पामे. पृ १६३९ a द्र. । f) = रज्जु- इति गोपीनाथः । g) = वेदि- । h) °ष्टे इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. श्रान., काश्रौ १२, ३, १ च) । i) विप. । तस्येदमर्थे ढकि प्र. यन्लोपः उत्सं. (पा ६, ४, १५० [तु. विद्याधरः P.W. प्रसू. च; वैतु. कर्कः <पृष्ठ- इति]) । j) विप. । वस. । k) निसू. पाठः । l) °प्याच्छ<sup>१</sup> इति पाठः ? यनि. शोधः स्यात् ? (तु. उत्तरं त्यलम्) ।



रृष्ट्य-मध्य<sup>a</sup> - ध्याः काश्रौ  
 २४, ४, ४.  
 पृष्ट्य-मध्यम<sup>b</sup> - माः आश्रौ १२,  
 १, ३; ६.  
 पृष्ट्य-मात्र - त्रौ निसू ९, ११ :  
 ३८.  
 पृष्ट्य-मुख<sup>c</sup> - खान् आश्रौ ११,  
 ७, १०.  
 पृष्ट्य-विकार - रः शाश्रौ ११,  
 ४, १.  
 पृष्ट्य-शमन - > नीय<sup>d</sup> - यः  
 आश्रौ १२, १५, ८.  
 पृष्ट्य-षडह - हे वाश्रौ ३, २,  
 २, ९.  
 पृष्ट्य-षष्ट - ष्टे वैताश्रौ ३१, २७.  
 पृष्ट्यषष्ट-वत् वैताश्रौ २७,  
 २६.  
 पृष्ट्य-सदृश - शौ निसू १०,  
 ३ : ३२.  
 पृष्ट्य-सांनिपातिक - के निसू  
 १०, ३ : २५.  
 पृष्ट्य-स्तोत्रिया - याः आश्रौ  
 ७, ३, १३.  
 पृष्ट्य-स्तोम<sup>e</sup> - मः आश्रौ ८,  
 ४, २५; १०, ३, १५ x x; शाश्रौ;  
 -मम् निसू ९, १२ : २७;  
 -मस्य छसू २, १० : ३; निसू  
 ६, ४ : ६; ९, ६ : २७; -माः  
 आश्रौ ११, ३, ८; शाश्रौ १४,  
 ३८, २; ५; काश्रौ २२, ६, २६;  
 -मात् निसू ४, ४ : १०;  
 -मानाम् शाश्रौ १३, २३, २; ४;  
 २४, ५; २८, ५; -मेन काश्रौ  
 २४, ४, १६; लाश्रौ १०, १०,

१६; -मैः शाश्रौ १६, २२, ८;  
 -मौ काश्रौ २४, २, १९; वौश्रौ  
 २६, ३३ : ४; निसू ९, १३ :  
 २३.  
 पृष्ट्यस्तोम-न्याय - येन  
 निसू ६, ४ : ७.  
 पृष्ट्यस्तोम-पञ्चाह - हः  
 निसू ९, १३ : २०; ३०; -हान्  
 लाश्रौ १०, ४, ४.  
 पृष्ट्यस्तोमपञ्चाह-त्व -  
 त्वात् निसू ९, १३ : ९.  
 पृष्ट्यस्तोमा(म-आख्या > )  
 ख्य<sup>f</sup> - ख्यः काश्रौ २३, ५, १३.  
 पृष्ट्य-स्वरसामन् - म्नाम् दाश्रौ  
 ७, ४, २१; लाश्रौ ३, ४, २०.  
 पृष्ट्या-काल<sup>g</sup> - लम् वौश्रौ २१,  
 ११ : १९; १४ : १६; १५ :  
 २४.  
 पृष्ट्या-त्सु (:) आपशु ९, ६;  
 हिशु ३, २५.  
 पृष्ट्या( छ्य-अ )तिग्राह्य - ह्याः  
 वौश्रौ २६, ८ : १.  
 पृष्ट्या( छ्य-अ )दि - दयः आश्रौ  
 १२, २, ३; काश्रौ २४, ४, १३.  
 पृष्ट्या-देश - शस्य माश्रौ २,  
 १, १, २१; ४, ३, ४; ६, २, ५, ६;  
 -शे माश्रौ २, २, ४, ४.  
 पृष्ट्या( छ्य-आ )नन्तर्य<sup>h</sup> - र्यं  
 दाश्रौ ७, ४, १७; लाश्रौ ३, ४,  
 १६.  
 पृष्ट्या( छ्य-अ )न्त - न्तयोः  
 आपशु १, ४; २, २; ५, १;  
 वौशु.  
 रृष्ट्या( छ्य-अ )न्त<sup>i</sup> - न्ताः

वाश्रौ १२, २, ४; ५.  
 पृष्ट्या-वर्हि-प्रमृत्ति - ति  
 वाश्रौ २, २, ४, २१<sup>e</sup>.  
 पृष्ट्या( छ्य-अ )भिष्व- वयोः  
 आश्रौ ७, ३, ४; १२, ४, १७;  
 शाश्रौ १२, २७, ५; निसू ५, २ :  
 २९ x x; -वान् वाश्रौ ३, २, ३,  
 २७; दाश्रौ; -वानाम् वौश्रौ २६,  
 १७ : १०; -वेभ्यः आपश्रौ  
 २३, ९, १६†; वौश्रौ २३, ११ :  
 २२<sup>g</sup>; -वौ शाश्रौ १३, १९, १२;  
 आपश्रौ २३, ९, ६; हिश्रौ १८,  
 ३, ११<sup>f</sup>; लाश्रौ ४, ५, ४.  
 पृष्ट्या( छ्य-अ )यन<sup>a</sup> - नः निसू  
 ५, ४ : २.  
 पृष्ट्या( छ्य-आ )रम्भण<sup>b</sup> - गान्  
 शाश्रौ १३, १९, ११; २२, ३.  
 पृष्ट्या( छ्य-अ )र्थ - र्थेन निसू  
 ९, १३ : ४०.  
 पृष्ट्या( छ्य-अ )वलम्ब<sup>c</sup> - म्बः  
 आश्रौ १०, ३, १९; काश्रौ २३,  
 ५, १७; हिश्रौ १७, ८; २१<sup>d</sup>;  
 निसू ८, १२ : १८; ९, १३ :  
 ३१; -म्बम् आश्रौ १०, ३, ३;  
 -म्बस्य आश्रौ १०, ३, २४;  
 निसू ९, ५ : ५; ६ : २७; -म्बात्  
 काश्रौ २३, ५, ३२; -म्बेन  
 आपश्रौ २२, २२, १९; हिश्रौ  
 १७, ८, २१.  
 पृष्ट्यावलम्बा ( म्ब-आख्या  
 > )ख्य - ख्यः काश्रौ २३,  
 ५, ३.  
 पृष्ट्या( छ्य-अ )विलोप - पान्  
 निसू ९, १३ : १४.

a) विप्र. । वस. । b) = पृष्ट्यशमनीय- । c) = पृष्ट्यषडह- । वस. ( तु. शाश्रौ १३, १६, ५ भाष्यम् ) ।  
 d) = पृष्ट्या-देश । e) सपा. माश्रौ ६, २, ६, १ पदलोभनप्रमृत्ति इति, आपश्रौ १७, २०, १८ वेद्यास्तरणादि इति च  
 पाप्मे. । f) पृष्टा इति पाठः? यनि. शोधः । g) = षडह-विशेष- । वस. वा उस. वा । h) ष्व्यः इति पाठः ६  
 यनि. शोधः ( तु. सस्य. ष्वेन इति ) ।

पृष्ठा(छय-आ)वृत्ति- -त्तौ मीस्  
१०, ५, ८५.  
पृष्ठा-शङ्कु- -ङ्कुम् माश्रौ १,  
७, ३, १३; २, २, १, ५२××;  
-होः माश्रौ २, २, २, १२;  
३, ६, १३.  
पृष्ठा-सहित- -त्तम् काश्रौ १८,  
३, २०.  
पृष्ठा( छय-अ)ह- -हेषु हिश्रौ  
१६, २, १५<sup>a</sup>.  
पृष्ठा( छय-अ)हन्- -हः आश्रौ  
९, २, ५; १०, १०, ८; १२, ६,  
२४; -हःसु आपश्रौ २१, १३,  
२०<sup>a</sup>; -हनि आश्रौ ५, ८, ६<sup>b</sup>;  
८, ४, १३<sup>c</sup>; -हानि आश्रौ ९,  
८, २५; १०, १, ७; शाश्रौ १४,  
६८, २; -ह्वा आश्रौ ८, ७, ११;  
१०, ९, ८; लाश्रौ १०, १०, १८;  
-हाम् आश्रौ १०, ३, २३; ११,  
५, ६.  
पृष्ठा(छय-उ)त्तम- -मे वैताश्रौ  
३८, १३.  
पृष्ठा( छय-उ)इय<sup>d</sup>- -यान्  
शाश्रौ १३, २२, ४.  
पृष्ठा( छय-उ)पधान- -नात्  
निस् ९, १२ : १५.  
पृष्ठा(छय-उ)पाकरण- -णम्  
काश्रौ १३, २, २५.  
पृष्ठा<sup>e</sup>- -प्वाः वौश्रौ १२, ८ : १३.  
पृष्ठा<sup>f</sup>- (>पृसी- पा.) पाग ४, १,  
४१.  
√पृ √पृ द.  
पृत्वक- पाठ ५, ३७.

पेट<sup>g</sup>- पाग २, ४, ३१.  
पेटावितकन्ते, पेटिलालकन्ते  
निस् १, २ : ४.  
पेट्व<sup>h</sup>- पाठ ४, १०५; -त्वः वाश्रौ  
३, २, ६, ३४; -त्वम् वौश्रौ १०,  
५७ : १०; १५, २३ : ७; २६ :  
९; हिश्रौ ९, ८, ३१; १६, ८,  
१५<sup>i</sup>; -त्वस्य आपश्रौ ७, ६,  
१; वौश्रौ ४, १ : २; भाश्रौ;  
-त्वौ या १२, २<sup>j</sup>.  
पेपा- पाठभो २, २, २०९.  
पेपिशान- √पिष् द.  
पेय- √पा (पाने) द.  
पेयूप- पाठ ४, ७६.  
पेरु- पाठ ४, १०१; -रवः आपश्रौ  
१५, ९, ८; वौश्रौ ९, ९ : १४;  
भाश्रौ ११, ९, १०; वैश्रौ १३,  
११ : १२; हिश्रौ २४, ४, ३;  
-रुः काश्रौ ६, ३, २८<sup>k</sup>; २०, ६,  
८; आपश्रौ.  
√पेल<sup>l</sup> पाधा. भ्वा. पर. गतौ,  
पेलयति निघ २, १४<sup>m</sup>.  
पेलव<sup>n</sup>- पाठभो २, ३, १३४; -वेन  
अप ५८<sup>o</sup>, ३, ९.  
पेलि<sup>p</sup>- (> पेलि-शाल-, °ला- पा.)  
पाग ६, २, ८६.  
√पेव् पाधा. भ्वा. आत्म. सेवने.  
पेश-, पेशल- प्रभृ. √पिष् द.  
√पेप् पाधा. भ्वा. आत्म. प्रयत्ने.  
पेप-, पेपण- प्रभृ. √पिप् द.  
पेपुण<sup>q</sup>->°पु(रा)>णा-गिरि- ऋत  
४, ७, १०.  
पेष्ठा- कि ५७.

√पेस् पाधा. भ्वा. पर. गतौ.  
पेस्वर- √पिस् द.  
√पै पाधा. भ्वा. पर. शोषणे.  
शपैङ्ग- रपिङ्ग- द.  
रपैङ्ग- रपिङ्ग- द.  
पैङ्गक- रपिङ्ग- द.  
पैङ्गरायण- पिङ्गर- द.  
पैङ्गल-, °लायन- प्रभृ. रपिङ्गल- द.  
पैङ्गाक्षीपुत्र- १पिङ्ग- द.  
पैङ्गायनि-, पैङ्गिन्- प्रभृ. रपिङ्ग- द.  
पैजवन- पिजवन- द.  
पैजूरायण-, °लायन- पिजूर[ल]- द.  
पैजूरायण- पिजूर- द.  
पैटक- रपिटक- द.  
पैटकिक- रपिटक- द.  
पैटाक- रपिटाक- द.  
पैटाकिक- १पिटाक- द.  
पैठक<sup>r</sup>- -काः वौश्रौ प्र ४६ : ३.  
पैठसर्प- पीठ- द.  
पैठीनस-, °नसि- पिठीनस्- द.  
√पैण<sup>s</sup> पाधा. भ्वा. पर. गतिप्रण-  
स्तेपणेयु.  
पैण्डायन- रपिण्ड- द.  
पैण्डिक्य- पिण्डिक, का- द.  
पैण्ड्य- रपिण्ड्य- द.  
पैतदारव- पीतदार- द.  
पैतामह- पितृ- द.  
पैतुदारव- पीतुदार- द.  
पैतुद्रव- पीतुद्रु- द.  
पैतृक-, पैतृमय- प्रभृ. पितृ- द.  
पैत्तिक- पित्त- द.  
पैत्र-, पैत्र्य- पितृ- द.  
पैद्व<sup>t</sup>- -कृद्वः अप ४८, ९३; निघ १,

a) सप्र. हेपु<> हःसु इति पाठे. । b) पृष्ठा<sup>o</sup> इति पाठः? यनि. शोषः [तु. आन.] । c) हानि इति पाठः? यनि. शोषः [तु. आन.] । d) निप. 1 वस. । e) वैप १ द. । f) तु. पाका. । वृत्त- इति भाषा., वृत्त-, वृत्त- इति पासि. । g) तु. पागम. । h) या ७, १३ परानृष्टः द. । i) निप. । व्यु. ?<पेल- इति अभा., √पेल् इति पाठभो. । j) = आचार्य-विशेष- । व्यु. ? । पेलि- इति पाका. । k) = गिरि-विशेष- ? । l) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । m) √प्रेण् इति [पेदे] पासि. ।

१४; -द्धम् कौसू ३२, १२;  
३५, ४; ८.  
पैनद्धक- पिनद्ध- द्र.  
पैप्पल- १पिप्पल द्र.  
पैप्पलव, ंव्य- पिप्पलू- द्र.  
पैप्पलाद-, ंलादि- १पिप्पल- द्र.  
पैयूक्ष- पीयूक्षा- द्र.  
पैल- पीला- द्र.  
पैलव-, लुकुण-, लूमूल- पीलु- द्र.  
पैलेय-, पैल्य- पीला- द्र.  
पैशाच-, ंच्य- पिशाच- द्र.  
पैशुन-, ंव्य- √पिश् द्र.  
पैष्ट- ४पिष्ट- द्र.  
१, २ पैष्टिक-, पैष्टी- √पिष् द्र.  
पोगण्ड- पाडभो २, २, ११७.  
पोटा<sup>१</sup>- पा २, १, ६५; पावा ३, १, १७.  
√पोटाय पा ३, १, १७.  
पोत<sup>२</sup>- पाड ३, ८६; पाग ४, २, ४९;  
५, १, १३०.  
पोत- पा ५, १, १३०.  
पो(ल्य>)ल्या- पा ४, २, ४९.  
पोतन-(>न्नी-पा.) पाग ४, १, ४१.  
पोतु- पाडभो २, १, ६१.  
पोत्<sup>३</sup>- पाड २, ९५; पा ६, ४, ११;  
पाग ५, १, १२९; -क<sup>४</sup>तः आश्रौ  
५, ७, ३; शाश्रौ ७, ६, ३; आपश्रौ;  
-ता आश्रौ ४, १, ६; ५, ३, २१;  
५, १७; शाश्रौ; -तारः माश्रौ  
२, ३, ६, १७; -तारम् आपश्रौ  
३७, १ : ९; ११, १९, ८;  
वौश्रौ; -क<sup>५</sup>तारौ आपश्रौ २, ८,  
६; भाश्रौ २, ८, ७; -तुः आश्रौ  
९, ४, १७; १२, ९, ६; शाश्रौ;  
-त्रा काटश्रौ १४२; वौश्रौ ७,  
१६ : ५१; ५३; -त्रे लाश्रौ ९,  
६, ६.

२पौत्र- पा ५, १, १२९.  
क<sup>६</sup>पोत्तम- मम् आपश्रौ १, ६,  
१०; वौश्रौ १, ३ : ५; भाश्रौ  
१, ६, १३; हिश्रौ १, ३, ४.  
क<sup>७</sup>पोत्र<sup>१</sup>- त्रम् आपश्रौ २४, १३,  
३; -त्रात् आपश्रौ ११, १९, ८;  
काश्रौ ९, ८, ११; काठश्रौ.  
पोत्रा(तु-आ)मीघ- -श्रौ वैताश्रौ  
१९, ६.  
पोत्रीय, या- यम् माश्रौ २, २, ४,  
४; -याम् भाशि १३.  
२पोत्र<sup>२</sup>- पा ३, २, १८३.  
पोष-, १-२पोषण- प्रम्. √पुष् द्र.  
पौंश्चलेय- पुंश्चली- द्र.  
पौंस्न-, पौंस्य- पुंस्- द्र.  
पौकरीय- पूकर- द्र.  
पौजनिक्य- √पूज द्र.  
पौञ्जिष्टि<sup>३</sup>- ंध्यः वौश्रौ १५ : १.  
पौटायन- २पुट- द्र.  
पौण्डरवत्स<sup>४</sup>- त्साः चव्यू २ : ३७.  
१पौण्डरीक- प्रम्. पुरण्डरीक- द्र.  
२पौण्डरीक<sup>५</sup>- -कः शाश्रौ १६, ३०,  
८; काश्रौ २३, ५, ३३; आपश्रौ;  
-कम् आश्रौ १०, ४, १; -के  
काश्रौ २३, १, ९.  
पौण्डल<sup>६</sup>- लः वौश्रौ २२ : ३.  
पौण्य- पुण्य- द्र.  
पौतदारव- पूतदारु- द्र.  
पौतरीय- पूतर- द्र.  
पौतिक-, ंक्य- पूतिक- द्र.  
पौतिमाष-, ंभाष्य- पूतिमाष- द्र.  
पौतीक- पूतीकी- द्र.  
पौतुदारव- पूतुदारु- द्र.  
पौतुद्रव- पूतुद्रु- द्र.  
पौत्य<sup>७</sup>- त्वः वौश्रौ २३ : १.  
१पौत्र- प्रम्. पुत्र- द्र.

२पौत्र- पोतु- द्र.  
पौत्रक्य- २पुत्रक- द्र.  
पौत्रिक्य- पुत्रिक- द्र.  
पौत्राद्य-, पौत्रीय-, पौत्र्य- पुत्र-  
द्र.  
पौनःपुन्य-, पौनःशिल-, पौनराधे-  
यिक- प्रम्. पुनर् द्र.  
१पौर- प्रम्. २पुर- द्र.  
२पौर- ३पुर- द्र.  
पौरगीय- पुरग- द्र.  
पौरण- १पूरण- द्र.  
पौरव- पूर- द्र.  
पौरश्चरणिक- पुरस् द्र.  
पौरागीय- पुराग- द्र.  
पौराण-, ंणिक- पुराण- द्र.  
पौरुकुत्स-, ंत्स्य- प्रम्. १पुरु- द्र.  
पौरुमद्र- पुरुमद्र- द्र.  
पौरुमीढ, ल्ह- १पुरु- द्र.  
पौरुष-, ंपमेधिक- प्रम्. पुरुष- द्र.  
पौरुषां, पाकिन्- पुरुषां, पासक-  
द्र.  
पौरुहन्मन-, पौरुवस- १पुरु- द्र.  
पौरुपेय-, ंथी-, ंथ्य- पुरुप- द्र.  
१पौरैय- ३पुर- द्र.  
२पौरैय- पू- द्र.  
पौरोडाश- प्रम्. पुरोडाश- द्र.  
पौरोह- १पुरोह- द्र.  
पौरोहित-, ंहितिक- प्रम्. पुरस् द्र.  
पौर्णदर्व- प्रम्. √पृ, पू द्र.  
पौर्य- ३पुर- द्र.  
पौर्धनगरेय- प्रम्. पूर्व- द्र.  
पौलस्त्य- पुर्लास्त- द्र.  
पौलाक- पूलाक- द्र.  
पौलास- पूलास- द्र.  
पौलि<sup>८</sup>- ल्यः वौश्रौ १९ : ५;  
२२ : ३.

a) = स्त्रीपुंसलक्षणा-। व्यु. ?। b) = समुद्र-यान-। व्यु. ?। c) वैप १ निर्दिष्टानां समावेशः द्र.।  
d) वैप १, १८४८ e द्र.। e) वैप १ द्र.। f) व्यप.। व्यु. ?। g) = सोमयाग-विशेष-। व्यु. ?।

पौलिन्य- पुलिन-द्र.  
 पौलोम-, ओ- पुलोमन्-द्र.  
 पौल्कस- पुल्कस-द्र.  
 १-रपौष- प्रमृ. √पुष् द्र.  
 ३पौष- √पूष् द्र.  
 पौष्करसादायन्-, ष्दि-, पौष्क-  
 र्यक- पुष्कर-द्र.  
 पौष्कल-, ल्येक- २पुष्कल-द्र.  
 पौष्कायण-, ष्कि- २पुष्क-द्र.  
 १पौष्टिक- प्रमृ. √पुष् द्र.  
 २पौष्टिक- -काः वौश्रौप्र २७ : २.  
 पौष्ण- ष्णी- √पूष् द्र.  
 पौष्पक- १पुष्प-द्र.  
 पौष्पायण-, ष्वि- २पुष्प-द्र.  
 प्याट् पाग १,४,५७.  
 प्यात्व- पाठना ४,११६.  
 √प्याय्<sup>b</sup> पाधा. भ्वा. आत्म. वृद्धौ >  
 प्यायन्<sup>c</sup> -ने या १२,१९.  
 प्युत्तण<sup>d</sup> -> प्युक्षण-वेष्टित- -तम्  
 काश्रौ १५,३,१९<sup>e</sup>.  
 √प्युप् √व्युप् टि. द्र.  
 √प्यै पाधा. भ्वा. आत्म. वृद्धौ.  
 प्र<sup>f</sup> काठश्रौ ५७<sup>g</sup>; या १, ३; ऋप्रा  
 १२, २०; १५, १७; शुप्रा ६,  
 २४; तैप्रा १, १७; पाग १,४,  
 ५८; प्रऽप्र पा ८, १, ६; प्रः  
 जैश्रौका ८८<sup>h</sup>; प्रात् पा ६, २,  
 १८३; पावा ५, ४, ३०; ६, १,  
 ८८; प्रै शौच २,७६.  
 प्रा(प्र-आ)दि- द्यः पा १,४,५९;  
 पावा २, २,१८; -दिभिः पावा  
 १, ४, १; -दिभ्यः पावा २, २,  
 २४; -दीनाम् पावा १, ४, १.

प्रादि-प्रसङ्ग- ङे पावा २, २,  
 १८.  
 प्रो(प्र-उ)दात्त<sup>b</sup> -त्ते शुप्रा ६,९.  
 ङिप्र<sup>c</sup> अनजा<sup>f</sup> ऋप्रा ८, १५; प्र  
 (अनजा) आश्रौ २, १३,७;१९,  
 १४; शाश्रौ १०, २, ९; ऋअ  
 २,५,५४.  
 प्र-उग<sup>g</sup> -गाः शाश्रौ १०, २, ३; ३,  
 ४,४××; वौश्रौ २५, २१ : ५;  
 -गम् आश्रौ ५,१०,९; ७, ६,  
 ३××; शाश्रौ; -गाः शाश्रौ ११,  
 ११, ८; आपशु १२, ५; हिशु  
 ४,२७; -गात् काश्रौ ७,९,४;  
 -ने आश्रौ ५, १०, ६; ७, १,  
 १०; शाश्रौ; -गेण ऋअ २, २,  
 ४१; -गौ शाश्रौ ११, १०, ३;  
 १६,७,१५; १४,४.  
 प्राडग<sup>h</sup> -गाः वृदे ४,९२.  
 प्रउग-चित्<sup>i</sup> -चित् काश्रौ १६,  
 ५, ९; काशु ४, १; -चित्तम्  
 वौश्रौ १७, २८ : १४; हिश्रौ  
 १२, ८, ६; वौशु १४ : १; हिशु  
 ४, २२; -चिता आपशु १२,  
 ९; वौशु १५ : २; हिशु ४,३०.  
 प्रउग-नृच- -चानि शाश्रौ १०, ३-  
 ४, ५; ५, ४××; -चेपु आश्रौ  
 १०,१०,३.  
 प्रउग-देवता- -ताः ऋअ २, १, ३;  
 वृदे २,१३५.  
 प्रउग-मध्य- -ध्ये वौशु १९ : ५.  
 प्रउग-शस्त्र- -स्त्रात् वैताश्रौ २०,  
 १४.  
 प्रउग-स्तोत्र- -त्राय वैताश्रौ २०,

१३.  
 प्रउग(ग-आ)दि- -दीन् वौशु  
 २१ : १०.  
 प्र-कट- पा ५, २, २९; पाग ५, १,  
 १२४<sup>k</sup>.  
 प्राकटय- पा ५, १, १२४.  
 प्र√कथ्, प्रकथ्यते अप २३,१,१.  
 प्र-कथन- पाग ८, १, २७.  
 प्र√कम्प्, प्रकम्पते अप ६७; ६, ३;  
 ७०<sup>l</sup>, १५, २; प्रकम्पन्ते ऋप्रा  
 ३, ३४; प्रकम्पन्ति अप ६४,  
 ७,४; ७२, ४,४.  
 प्रकम्पयन्ति<sup>m</sup> आपश्रौ १२, २८,  
 १; १८,७,४; हिश्रौ ८, ८, ३३;  
 १३, २, ३१<sup>n</sup>; प्रकम्पयेत् शैशि  
 १४२; माशि ८,५.  
 प्र-कम्पन- -नम् अप ६४, ६, ३.  
 प्र-कम्पित,ता- -ता, -ताः सु ४,  
 १; -तायाम् अप ६२, १, ३;  
 २-४, १.  
 प्र-कम्प्य काश्रौ ४,१४,१९.  
 प्र-कर- प्र√कृ (विक्षेपे) द्र.  
 प्र-करण-, तैव्य- प्र√कृ द्र.  
 प्र-कर्ष- प्र √कृप् द्र.  
 प्र√कल्, प्रकालयति वाश्रौ १,२,१,  
 ६; प्रकालयेत् द्राग ३,१,४२.  
 प्र-कालयित्वा काग ५९,६.  
 प्र-कालयमा(न>)ना- -नाः गोग  
 ३,६,१.  
 ङिप्रकल्<sup>o</sup> -> प्रकल-विट्<sup>p</sup> -वित्  
 अप ४८, १२८; निघ ४, ३;  
 या ६,६५.  
 प्र-कला<sup>q</sup> -लाः या ६, ६.

a) = ऋपि-विशेष- । व्यु. ? । b) या २,५; ९,२४ पा ३,१,६१; ६,१,२८ परामृष्टः द्र. । c) विप. (अन्तरिक्ष- ) । d) अर्थः व्यु. च ? = स्नायु-वा अजगर-चर्मन्-वेति भाष्यम् । e) तु. सपा. माश ५,३,१,११ PIV. प्रमृ. च; वतु, चौसं. अप्युक्षण-> ष्णवे इति ?, उक्षण-> उक्षणवे इति ता [माश.]? । f) वैप १ द्र. । g) प्रेषा [काठ ३,६] इत्यस्याऽऽयमक्षरम् । h) कस. । i) विप. (तुच- ) । j) = (प्रउगाकृति-) अग्नि-स्थण्डिल- । उप. कर्मणि किल् । k) तु. पागम. । l) तु. सस्थ. टि. अनु । m) पृ. १८३ अनुप्र इति निर्देशो नेष्टः । n) प्रास. (तु. वैप १,२११३ U) ।

प्र-कल्पक- प्रस्य. प्र-कल्प् द्र.  
 प्र-काम<sup>२</sup>- पाग १, १, ३७<sup>b</sup>; ५, १,  
 १२४; -मा: जैगृ २, १ : ३२<sup>१०</sup>;  
 -फामात् कागृ ६३, १३<sup>d</sup>; विध  
 ७३, १५<sup>e</sup>.  
 प्राकाम्य- पा ५, १, १२४.  
 प्र-कार- प्रस्य. प्र-कृ द्र.  
 प्र-कालयित्वा, °ल्यमान- प्र-कल् द्र.  
 प्र-काश, प्रकाशते अप ५८<sup>३</sup>, ४,  
 १६; ६८, १, ८; प्रकाशन्ते अप  
 ५२, ५, ३; ७, २××.  
 प्रकाशयति वैश्रौ १०, २ : ११;  
 या ९, १९; प्रकाशयन्ति या ३,  
 ९; प्रकाशयेत् आज्यो १, ६.  
 प्र-काश(वप्रा.)<sup>१</sup>- -शः आपश्रौ  
 २३, १४, ८; हिश्रौ १८; ४, ६२;  
 कागृ ३८, ५<sup>६</sup>; -शम् आपश्रौ १०,  
 २०; १०; कौगृ १, १७, ६; शांगृ  
 १, २, ५, ९; वैगृ ३, १९ : ९; शंघ  
 २७४; विध ५, १६४<sup>b</sup>; १९०<sup>b</sup>; गौघ  
 २३, १४<sup>b</sup>; वृदे २, ६५; ५, २२.  
 प्रकाश-कर्मन्- -र्मणाम् या  
 १४, १२.  
 प्रकाश-काम- -मा: आश्रौ १२,  
 ५, ५.  
 प्रकाश-लिङ्ग<sup>१</sup>- -ङ्गः या १४, ३.  
 प्रकाश-वृष्टि- -ष्टया अप ७०<sup>३</sup>,  
 ११, ३२.  
 प्रकाशी √भू > प्रकाशी-  
 भाव- -वस्य या १२, १.  
 प्र-काश, शा<sup>१</sup>- -शा: विध १६,  
 १७; माशि १, ५१<sup>६</sup>.  
 प्र-काशन- -नम् या १, १९; -नात्

या ६, १; १२, २५; -ने अप  
 ४८, ५८.  
 प्रकाशन-चत्- -चन्तम् या ६, १०  
 प्रकाशन-स्थेयाख्या- -ख्ययो:  
 पा १, ३, २३.  
 प्र-काशयत्- -यन् वृदे ५, २२; ६,  
 ५९.  
 प्र-काशयति-> प्रकाशयति-कर्मन्-  
 -र्मणः या २, २५; १२, ८.  
 प्र-काशिन- -शिनि अप ६३, १, १०.  
 प्रा-काश<sup>१</sup>- -शौ<sup>३</sup> काश्रौ १५, ८, २३;  
 वौश्रौ १२, १८ : १४; लाश्रौ ९,  
 २, १३; मीसू १०, ३, ६३.  
 प्र-कित्<sup>१</sup>, फप्रचिकितः आश्रौ २, १९,  
 २२; ३, ७, ७; ४, ३, २; शाश्रौ.  
 प्र(चिकेत) वौश्रौ १३, २५ : ५<sup>१</sup>.  
 फप्र-क्रेत- -तः वैताश्रौ २२, ४<sup>३</sup>;  
 या २, १९७.  
 प्र-क्रेतन- -नम् या २, १९.  
 प्र-कीर्ण- प्रस्य. प्र-कृ (विक्षेपे) द्र.  
 प्र-कीर्ति (<कीर्ति-), प्रकीर्त्यते  
 वृदे १, ७३; शैशि ३५; ११२.  
 प्र-कीर्तन- -नम् वृदे ४, ३०.  
 प्र-कीर्तना- -ना या ७, ९.  
 प्र-कीर्तित, ता- -तः कप्र ३, ९, १७;  
 अप २१, ५, ३; ३६, ३०, ३;  
 विध; -तम् कप्र २, १०, १६;  
 अप; -ता अप २२, ७, ४; २३, ३,  
 ४; ३०, ३, १; शंघ ६५<sup>१</sup>; विध २६,  
 ५; वृदे ६, ७२; -ता: वौश्रौ २८,  
 ११; १२; वौश्रौ प्र ५४: २; शांगृ.  
 प्र-कीर्य, °र्यमाण- प्र-कृ(विक्षेपे) द्र.  
 प्र-कृप्, प्रकृप्यते अप ६४, २, २.

प्र-कृपित- -त्तान् शाश्रौ ८, २५, १<sup>१</sup>.  
 प्र-कृ, फप्र(कृष्व) शाश्रौ १४, ६०, २;  
 ७१, ४; वृदे ५, १०६.  
 प्र-कृणुध्वम् आश्रौ ३, ८, १<sup>१</sup>.  
 फप्र (कृणुध्वम्) आश्रौ २, ९,  
 १४; वौश्रौ ३, १२ : २०; माश्रौ  
 ५, २, ७, ६; वैश्रौ ८, १ : १०.  
 प्रकृर्वते शांगृ २, १७, ४; प्र-  
 करोत् अप्राय ६, २<sup>१</sup>; प्रकृर्वति  
 आगिगृ २, ६, ५ : २३; वौगृ  
 २, ९, २०; कप्र; प्रकृर्वित् पागृ  
 ३, १०, २५.  
 प्रक्रियेताम् गोगृ १, ४, २२.  
 प्रकारयेत् अप ६८, ५, २०;  
 गौघ ५, ३३.  
 प्र-करण<sup>१</sup>- -णम् वृदे २, ९६; मीसू  
 १, ४, १४; २, २, ३; ४, ४, ४;  
 -णस्य वृदे २, ९३; अप १ : ५;  
 -णात् काश्रौ १३, १, १४; ४,  
 १०; २३, ४, २६; वृदे; -णे  
 काश्रौ १, ३, ३०; लाश्रौ १०,  
 ६, १; मीसू; -णेन आपश्रौ २४,  
 २, २७; मीसू ३, ३, ८; -णेषु  
 कौगृ २, ७, २६; ३०; शांगृ २,  
 १२, १४; १७.  
 प्राकरणिक- -का: मागृ १,  
 ९, ३.  
 प्रकरण- -णात् पावा १, १,  
 ३-५××; -णे पावा १, १, ३६;  
 ३, २, ५××.  
 प्रकरण-काल-लिङ्गा(ङ्ग-अ) नुग्रह-  
 वचना(न-अ) नाहिताश्रुति-  
 -तिभ्यः काश्रौ ४, १, २९.

a) प्रास. उप. भावकर्मणोर् घञ् प्र. । b) वा. किवि. । c) षा इति पाठः? यनि. शोधः ।  
 d) सपा. जैगृ २, १ : ३२ अपक्रामाः इति पाठे. । e) षाः इति जीसं. । f) भाप., नाप. । g) = दर्पण- ।  
 गस. उप. अधिकरणे कृत् । h) = जनसमक्षम् (तु. मनु ८, ३७२ संस्थाने बहुसंस्थिते इति पाठे. ) । i) विप. ।  
 वस. । j) उप. कर्तरि लृच् प्र. । k) षाः इति पाठः? यनि. शोधः । l) वैप १ द्र. । m) = कर्ण-नेष्टन-  
 इत्यपरे (तु. भाष्यम् [काश्रौ. लाश्रौ. ] ) । n) पाठे. वैप १, २११४ i. द्र. ।

प्रकरण-निबन्धन- -नात् मीस्  
७,१,१२.

प्रकरण-भूत-त्व- -त्वात् लाश्रौ  
१०,१७,७.

प्रकरण-वत् लाश्रौ ९,६, २१.

प्रकरण-विशेष- -पात् मीस् ३,  
६,९;७,१;९,३,१८.

प्रकरण-शब्द-सामान्य<sup>a</sup>- -न्यात्  
मीस् ४,४,१.

प्रकरण-शसः(ः) या १३,१२.

प्रकरणा(ण-अ)न्तर- -रे मीस्  
२,३,२४; १०,१,१.

प्रकरणा(ण-अ)विभाग- -गात्  
मीस् ३, २, १८; ६, २९; ४१<sup>b</sup>;

-गे मीस् ४,४,५; ११,१, ६४.

प्रकरणा(ण-अ) विशेष- -पात्  
मीस् ३,१,७;४, १५; ६,१८;८,  
३०.

प्रकर्णो(ण-उ)पपत्ति-

-त्तिभ्याम् मीस् ३,२, २१.

प्र-कर्त(व्य >)व्या- -व्या अप  
७०<sup>c</sup>,११,१.

प्र-कार- -रः काण्ड ४५: १५ -रे  
पा,पावा ८, १, १२.

प्रकार-द्वय- -यम् काठश्रौ २०.

प्रकार-वचन- -ने पा ५,३,६९.

प्रकारा(र-अ)न्तर- -रम् काण्ड  
४५: १५.

प्र-कृत,ता- -तम् कप्र १,५, ११;

शंघ २२५; -तस्य वाध ११,  
३०; -ता अप २२,९,४; -तात्

पाण्ड २,१७, १७; तैप्रा २, २५;

-तान् अप ६८,२, ३७; -तानि  
अत्रम् १; -ताभ्यः वृदे ३,  
१२७; -ते अप ३६,५,३; पावा

३, ३,४३; १६१; -तेन हिश्रौ  
१४,३, २३; -तेषु वाध १४,  
२५.

प्रकृत-वचन<sup>d</sup>- -ने पा ५,४,२१.

प्रकृता(त-अ)न्न- -न्नम् विध  
६७,३८.

प्रकृतान्न-विकिर<sup>e</sup>- -रम् शंघ  
२१७.

प्रकृता(त-अ)र्थ-विशेषण- -त्व-  
-त्वात् पावा ७, १, २३.

प्र-कृति(वप्रा.)<sup>e</sup>- -तयः अप ६८,१,  
४९<sup>f</sup>; आपध २, २४, १३<sup>g</sup>; विध

३, ३३<sup>h</sup>; हिघ २,५,७७<sup>i</sup>; अज  
९,५<sup>j</sup>; या २,२<sup>j</sup>; ऋप्रा १३, ३<sup>k</sup>;

-तिः आश्रौ ८,१३, ३१<sup>k</sup>; ११,  
१,७; शाश्रौ; कौण्ड २, ४, २१<sup>l</sup>;

शुश्र १, ३०४<sup>l</sup>; ४, १८५<sup>l</sup>;

अश्र १, ३<sup>l</sup>; या १४, ७;

तैप्रा २४, ५; पा १, ४, ३०<sup>k</sup>;

उनिस् २ : १८<sup>l</sup>; पिं ४, ३<sup>l</sup>;

-तिभिः वैताश्रौ ४३, ४४; -तिम्  
शाश्रौ ९,१,३; वौण्ड १,४, ४४<sup>n</sup>;

या १४, ४; ऋप्रा ११, ३६; -ती  
अश्र १३, ३; -तीनाम् वाश्रौ

३,१,१,२९; -तेः शाश्रौ १४, १,  
१; काश्रौ ५,४,५; आपश्रौ; -तौ

आश्रौ ३,२,१७; शाश्रौ ६, १,

२; काश्रौ; पा.५,१,१२<sup>m</sup>; -त्या

आश्रौ १, २, २४; ६, ६××;

शाश्रौ; या २, २८; ऋप्रा २,  
३३<sup>n</sup>; ५१<sup>n</sup>; उस् ५, ५; शुप्रा ३,  
११; तैप्रा ९, १६; अप्रा २, ३,

९; शौच ३, ३३; नाशि १, ८,  
९; भास् ३, ८; पा ६, १, ११५;

२, १××; पावा ६, ४, १६३<sup>o</sup>;

पिं ४, ४; मीस् ५, १, २५<sup>o</sup>;

-त्याम् वौश्रौ २५, १० : २०.

प्राकृत,ता<sup>p</sup>- -तः शाश्रौ ७,  
२१,७; १४, २२, ६××; आपश्रौ;

-तम् शाश्रौ ९, १, ३; काश्रौ;

शंघ ४३९<sup>q</sup>; गौध २२, १३<sup>r</sup>;

-तस्य काश्रौ २२, २, १४; ३,  
२१; भाश्रौ; -ताः आश्रौ ३,  
२, १८; काश्रौ १९, ६, १०; २५,

४, ४७; वौश्रौ; -तात् हिश्रौ  
५, ४, ११; मीस् ५, २, २२;

-तान् आपश्रौ २०, १५, ४;

हिश्रौ १६, ७, ८; -तानाम् आश्रौ  
१२, ८, २; मीस् ५, २, १८××;

-तानि काश्रौ १६, ४, ३०; वौश्रौ  
२२, १८ : १०; -ते आश्रौ ८,  
४, १७; वौश्रौ २४, १ : १३;

लाश्रौ ८, १२, ६; अश्र १३, १<sup>q</sup>;

शैशि ११; पाशि ३<sup>r</sup>; -तेन  
शाश्रौ १५, १, ८; वौश्रौ; -तेषु

हिश्रौ १, १, २२; -तैः आपश्रौ  
७, १४, ९; २६, १३; हिश्रौ;

-तौ आपश्रौ १९, १८, ४; हिश्रौ

a) सस. > पस. (तु. शावरभाष्यम्) : b) ष्विशेषात् इति प्रयासं. । c) पस. वा उक्त. वा । पूष.

= प्राचुर्येण प्रस्तुत- (तु. पाका.) । d) उप. भाप. । e) भाप., नाप. । गस. उप. क्तिन् प्र. । उक्त. इति न्यासः

(अथ शब्दानुशासनम् इत्यत्र) । f) = स्वभाव- । g) = शरीर- । h) = राज्य-तन्त्र- (तु. मनु ९, २९४) ।

i) = छन्दो-विशेष- । j) = आख्यात- (तु. दु.) वा घातु- वेति र्क. । k) = मूलाधिष्ठान- । l) सपा. शाण्ड २,

७, २६ प्रभृतिः इति पाभे. । m) = उपादान-कारण- इति पाका. । n) = प्रकृति-भाव- । o) प्रवृत्त्या इति

जीसं. प्रभृ. । p) तस्येदमोपायर्थे अण् प्र. । q) = व्रत-विशेष- (तु. मेधातिथिः [मनु ११, १५८] = प्राजापत्य-

इति) । r) = खट्वादिरहित-व्रत- इति भाष्यम् । s) प्रकृ इति पाठः? यनि. शोधः । t) = भाषा-विशेष- ।

२२,२, ४; वैताश्रौ.

प्राकृती<sup>a</sup>- -ती लाश्रौ

९,७,२; निस् ८,१२:७; -ती:

शाश्रौ १, १७. २०<sup>b</sup>; आपश्रौ;

-तीनाम् मीस् ८, ३, १३;

-तीभ्यः आपश्रौ ९, ४, ७;

१०; भाश्रौ ९, ६, ३; मीस्

६, ५, १६; -तीषु माश्रौ ६,

१, १, २; वाश्रौ २, १, १, १;

-त्याः भाश्रौ ६, १५, ११; -त्यै

भाश्रौ ६, १५, १२.

प्राकृत-कर्म-त्व- -त्वात्

पावा ३, १, ८७.

प्राकृत-गुण-लोप- -पः

मीस् १०, २, ६८.

प्राकृत-त्व- -त्वात् काश्रौ

५, ४, ३.

प्राकृत-निवृत्ति- -त्तिः

काश्रौ २२, ३, ४९.

प्राकृत-प्रतिषेधा(घ-अ)

र्थ- -र्थम् मीस् १०, ८, १७<sup>b</sup>.

प्राकृत-चैकृत- -तैः ऋप्रा

२, ३४.

प्राकृत-त्रत<sup>c</sup>- -तः काश्रौ

२०, ४, ६.

प्राकृतो(त-उ)द्वय<sup>d</sup>- -याः

ऋप्रा २, २३.

प्राकृतो(त-उ)प(धा&gt;)

घ<sup>e</sup>- -घः ऋप्रा ४, ३५.१प्राकृति-काल<sup>d</sup>- -लः मीस् ११,

३, ४५.

प्राकृतिकाल-मध्य-त्व<sup>e</sup>-

-त्वात् आपश्रौ २४, ४, १९;

मीस् १२, २, १९.

प्राकृतिकाल(ल-आ)सत्ति-

-त्तेः मीस् ११, ३, ४८.

२प्राकृति-काल<sup>c</sup>- >ल-त्व-

-त्वात् मीस् ५, ४, २२.

प्राकृति-ग्रहण- -णम् पावा १,

१, २०.

प्राकृति-ज्ञान-कोविद- -दाः

अप ६८, १, ८.

प्राकृति-त्सः(ः) मीस् ३, ६, १६.

प्राकृति-तुल्य- -ल्यानाम् अप

६८, १, ६.

प्राकृति-दक्षि(णा>)ण<sup>g</sup>- -णः

वैश्रौ १७, ११ : १२.

प्राकृति-दर्शन- -नम् शौच ४,

७३; -नात् काश्रौ ५, ११, ९;

मीस् १०, ५, ३८.

प्राकृति-दीर्घ- -घौं शुप्रा ३,

१२९.

प्राकृति-देवता- -ताभ्यः आपश्रौ

२४, ३, ४५; भाश्रौ ६, १५, १०;

हिश्रौ ३, ८, ३०.

प्राकृति-द्रव्य<sup>h</sup>- -न्याणि अप ३,

१, १.

प्राकृति-धर्म-त्व- -त्वात् मीस्

५, १, १९.

प्राकृति-धर्म-लोप- -पः मीस्

५, १, २०.

प्राकृति-निपातन- -नम् पावा

२, ४, ७०.

प्राकृति-नियम- -मे पावा ३,

१, २.

प्राकृतिनियमा(म-अ)भाव-

-वः पावा ३, १, २.

प्राकृति-निहासा(स-अ)र्थ- -र्थम्

पावा ४, ३, १००.

१प्राकृति-प्रत्यय- -यात् लाश्रौ

१०, ४, ४.

२प्राकृति-प्रत्यय<sup>h</sup>- -ययोः पावा

६, १, १५४.

प्राकृति-प्रत्यापत्ति- -त्तिः पावा

३, १, २६.

प्राकृतिप्रत्यापत्ति-वचन-

-नम् पावा ४, १, ३६.

प्राकृति-भाव<sup>i</sup>- -वः शुप्रा ४,

८२; अप्रा २, ३, २५; याशि

२, ८<sup>j</sup>; पावा ६, ४, १६३; -वस्य

अप्रा ३, १, २; -वे आश्रौ ५,

१, ७; पावा ६, ४, १३५; ८, १,

५१; २, १६; -वेऽ-वे आश्रौ

१२, १५, १२<sup>k</sup>.

प्राकृतिभाव-प्रसङ्ग- -ङ्गः

पावा ८, १, ५१.

प्राकृतिभाव-मात्र- -त्रम्

पावा ६, १, १२५.

प्राकृतिभावा(व-अ)र्थ- -र्थम्

पावा ६, १, १२३.

प्राकृति-भूत- -तानाम् निस् ६,

१२ : २६; -तानि अप ७१,

१९, ३.

प्राकृति-भूमन्- -मभिः या ७, ४.

१प्राकृतिमुख<sup>k</sup>- -त्वेभ्यः अप ३,

१, १०.

१प्राकृति-लिङ्ग- -ज्ञानि हिश्रौ

३, १, १०.

प्राकृतिलिङ्ग-संयोग- -गात्

मीस् १०, ४, ८; ६, १६.

प्राकृतिलिङ्गा(ङ-अ)संयोग-

-गात् मीस् १०, ४, १.

२प्राकृति-लिङ्ग<sup>c</sup>-त्व- -त्वात्

मीस् ३, ८, ४४.

प्राकृति-वत् काश्रौ १, ७, ६; २५,

a) विप. (रात्रिः, सामिधेनी- प्रश्न.) । b) प्र<sup>o</sup> इति पाठः? यनि. शोधः (तु. जीसं. प्रश्न.) । c) विप. ।

वस. । d) पस. । e) मध्य- = मध्यभाव- । f) उप. = रदक्षिणा- । g) मलो. कस. । h) दस. ।

i) = संधि-विशेष- । j) = (प्राकृतेः [ज्योतिष्टोमस्य]) पृष्ठयशमनीय-भाव- । k) पाठस्तुदितः? ।

११,११; आपश्चौ २, १२, ५;  
 वैश्रौ; पावा ३,१,२६.  
 प्रकृति-विकारा (र-अ)व्यव-  
 स्था-स्था पावा १,१,६७.  
 प्रकृति-विकृति-त्योः मीसू १,  
 १,१०.  
 प्रकृति-विवक्षा-ग्रहण-गम्  
 पावा ५,४,५०.  
 प्रकृति-विशिष्ट-ष्टम् वाध  
 ४,१.  
 प्रकृति-विहित-तम् काश्रौ  
 २४,१,१५; २४;३,२५; -तानि  
 काश्रौ २४,२,१; १०; ३१; -ते  
 काश्रौ २४,१,२६; -तेषु काश्रौ  
 २४,१,५.  
 प्रकृति-शब्द-ब्दः पावा ४,  
 ३,१५३.  
 प्रकृति-संहिता<sup>b</sup>-ता नाशि २,  
 ५,६.  
 प्रकृति-संनिधान-नात् मीसू  
 १०,४,३.  
 प्रकृति-सविध-धम् निसू २,  
 १० : २६.  
 प्रकृतिसविध-न्तर-रम् निसू  
 ४,५ : १०.  
 प्रकृति-सार्वनाम्य-स्यात् या  
 ७,४.  
 प्रकृति-स्तोम-मः निसू ८,३;  
 १६; १३ : १३; १७; २३.  
 प्रकृति-स्थ-स्थः विध २४,  
 ३९; -स्थान् बौध ३,८,१०.  
 प्रकृति-स्वप्न-भाव-वेषु अप  
 ६८,१,३७; -वैः अप ६८, १,  
 २०.  
 प्रकृति-स्वप्न-लक्षण-णे अप  
 ६८,१,१९.

प्रकृति-स्वर-रस्य पावा ३, १,  
 ३; -रै पावा ६,१,१५४.  
 प्रकृतिस्वर-त्व-त्वे पावा  
 ६,२,१३९.  
 प्रकृतिस्वर-वलीयस्त्व-  
 त्वात् पावा ६,१,१५४.  
 प्रकृतिस्वर-भाव-प्रसङ्ग-  
 ङ्गः पावा ६,२,५२.  
 प्रकृतिस्वर-वचन-नम्,  
 -नात् पावा ६,२,४९.  
 प्रकृत्य(ति-अ)धिकार-रात्  
 मीसू ८,३;१३.  
 प्रकृत्य(ति-अ)नुग्रह-हात्  
 काश्रौ १, ६, २७; २२, १,१७;  
 ४६.  
 प्रकृत्यनुग्रहा(ह-अ)नुयाज-  
 प्रतिषेध-धाम्याम् काश्रौ ७,  
 ५,२३.  
 प्रकृत्य(ति-अ)नुपरोध-धात्  
 मीसू १०,३,१४; १९.  
 प्रकृत्य(ति-अ)न्तर-रम् पावा  
 ६,१,६०; -रेषु पावा १,३, १.  
 प्रकृत्यन्तर-त्व-त्वात् पावा  
 ३,१,१९; ३४; ४,३, २३; १६१.  
 प्रकृत्य(ति-अ)न्वय-यात् मीसू  
 ५,१,१८; ११,४,२८.  
 प्रकृत्य(ति-अ)पश्रय<sup>b</sup>-याः निसू  
 ८,८ : १२.  
 प्रकृत्य(ति-अ)भाव-वात् पावा  
 ५,१,२.  
 प्रकृत्य(ति-अ)भिहितत्व-त्वात्  
 पावा ३,३,१६१; ५,४,५.  
 १ प्रकृत्य(ति-अ)र्थ-र्थस्य पावा  
 ५,२,२९; -र्थे पावा ५,३, ६७.  
 प्रकृत्यर्थ-नियम-मे पावा  
 १,३, १२.

प्रकृत्यर्थ-विशेषण-त्व-  
 त्वात् पावा ५,३, ६७; ८, १  
 १२.  
 प्रकृत्यर्थ-वैस्पष्ट्य-वचन-  
 नात् पावा ५,३, ६६.  
 २ प्रकृत्य(ति-अ)र्थ<sup>b</sup>-र्थः मीसू  
 ३, ६; ८; -र्थम् मीसू ३, ६,  
 १४.  
 प्रकृत्यर्थ-त्व-त्वात् मीसू  
 ७,४,२०; ११,३, ४२.  
 प्रकृत्या(ति-अ)कान्त-मण्डल<sup>c</sup>-  
 ले अप ६३,३,१.  
 प्रकृत्या(ति-अ)दि-दिभ्यः  
 पावा २,३,१८.  
 प्रकृत्या(ति-अ)देश-शः अप्रा  
 २,४,५.  
 ?प्रकृत्यापश्रयम्<sup>d</sup> निसू ३, ३ :  
 २३.  
 प्रकृत्यु(ति-उ)पपदो(द-उ)  
 पाधि-धीनाम् पावा ३,१,१.  
 प्रकृत्यु(ति-उ)पवन्ध-न्धात्  
 आपश्चौ २४,४,१८.  
 प्रकृत्यु(ति-उ)पवन्धन-नात्  
 मीसू ८,३,३२.  
 प्र-कृत्य बौधौ १८, २१;५; कौसू  
 ४४,३५.  
 प्र-क्रिया-याम् आप्रिष्ट २,६, ५ :  
 २३; बौध २, ९, २०; -यासु  
 वृदे १,९५.  
 प्रा(<प्र)-कार<sup>e</sup>-रम् अप ६२,२,  
 ३; ७०<sup>३</sup>,२०,१; -राणाम् अप  
 ७१, २, २; -रान् वाधुश्री ३,  
 ८१ : २; -रैः शाश्रौ १६,१८,  
 १४.  
 प्राकार-द्वार-तोरण-णैः अप  
 ७०<sup>३</sup>, ६, ६.

a) = प्रकृतिभाव-संधि-। b) विप.। वस.। c) विप.। वृस. > वस.। d) पाठः? (तु. संस्कृतुः  
 टि.)। e) न्धात् इति जीसं. प्रन्.। f) नाप.। गस. टप. घनन्ते टपसर्गस्य दीर्घः (पावा ६,३,१२१)।



प्राकार-मर्दिन्<sup>१</sup>- (>°मर्दि-  
पा.) पाग ४, १, ९६.

प्राकार-वेश्म-भि(ति>)त्ती-  
-त्तियु अप ७०<sup>२</sup>, २३, ९१<sup>१</sup>.

१प्र-कृत- प्र✓कृ द्र.

२प्र-कृत<sup>०</sup>- (>प्राकृतयान- पा.) पाग  
४, १, ११०.

प्र-कृति- प्रमृ. प्र✓कृ द्र.

प्र✓कृप्, प्रकर्षति वाश्रौ १, २, ४, ६५;

३, ६, २; २३<sup>१</sup>?<sup>१</sup>; गोय १, ७, १३;

कौसू २०, ९; १०; प्रकर्षेत् द्रायु

१, २, ९; गौघ १५, ६.

प्रकर्षयेत् आगृ २, १०, ३.

प्र-कर्ष- (> प्राकर्षिक- पा.) पाग  
५, १, ६४.

प्र-कर्षण- -णे अत्रा १४, ७.

प्र-कर्ष्य कौसू २९, ६; ३२, २१.

प्र-कृष्ट- -ष्टे पा ५, १, १०८; -ष्टौ  
तैप्रा २, १५.

प्रकृष्ट-चर्त्सा(र्त्स-अ)पहारिन्-  
-री विध ४४, १३.

प्र-कृष्य माश्रौ १, ३, १, २४; मागृ.

प्र-कृष्य- -ष्यः काश्रौ २४, ५, २७;

आपश्रौ २३, १२, १५; हिश्रौ

१८, ४, २९; लाश्रौ १०, १५,

१५<sup>१</sup>.

प्रकृष्य-कुत्सित-ग्रहण- -णम्  
पावा २, ३, १७.

प्र✓कृ (विक्षेप), प्रकिरति काश्रौ ५, ३,

३२; १७, १२, २७; भाश्रौ ७,

३, ११; माश्रौ २, ५, ४, ३०;

वौषि ३, २, १२; कौसू ४७, ३०;

प्रकिरन्ति शाश्रौ १६, १५, ११;

वौश्रौ ९, २ : ३३.

प्रकीर्यते शंघ २८७; २८९.

प्र-कर<sup>१</sup>- -रः कप्र १, ३, ९.

प्र-कीर्ण,र्णा- -र्णाः अप ७०<sup>३</sup>, ११,  
२९; विध ४४, १०<sup>१</sup>; -र्णानाम्

वौश्रौ १९, ६ : ४<sup>१</sup>; -र्णानि या

९, २३; -र्णे अप ५३, ४, २;

-र्णेन अप ५८<sup>३</sup>, २, ८; -र्णेषु

विध ४४, १०<sup>१</sup>.

प्रकीर्ण-क<sup>१</sup>- -कम् विध ४२,

१; -केषु विध ३३, ५.

प्रकीर्णक-पातक->°किन्-

-किनः विध ४३, ३१.

प्रकीर्ण-केश<sup>१</sup>- -शः आम्रिगृ ३,

११, १ : ४; अप ६८, २, ४४;

शंघ ३८४; आपघ १, २५, ४;

हिघ १, ६, ७९; गौघ १२, ४०;

-शाः आम्रिगृ ३, ५, ३ : ३;

४ : ७x४; वौषि.

प्रकीर्णकेशी- -शयः आम्रिगृ

३, ५, ३ : ५; वौषि १, ३ : ४;

कौसू ८४, १०.

प्रकीर्ण-पातक- -के विध ४२, २.

प्रकीर्ण-माण्ड-भोजनीयो ( य-

उ ) पस्कर-द्र( व्य> )व्या<sup>१</sup>-

-व्या शंघ ७२.

प्रकीर्णा(र्ण-अ)वशीर्ण- -र्णानाम्

कौसू ८८, १३.

प्र-कीर्य वैश्रौ १३, ६ : ८; आगृ.

प्र-कीर्धमाण- -णान् आपश्रौ २२,

२८, ७; हिश्रौ २३, ४, ४७.

प्र✓कृप्, प्र✓कृत्-कल्पताम् गोय २;

१, १९; जैय १, २० : १७; प्र

(कल्पताम्) गोय २, १, २०; जैय  
१, २० : १७.

प्रकल्पयते आपश्रौ ९, ११, २३;

वौषि ३, ८, १; हिषि २३ : २२;

प्रकल्पयति आपश्रौ १, १५, ५;

१२, ९, ७; हिषि ११ : ३;

प्रकल्पयन्ते निसू ३, ५ : २२;

प्रकल्पयेत् निसू ५, ५ : ३; अप

५, ४, ५; ६, १, ७; १९<sup>३</sup>, २, ४;

वौघ.

प्र-कल्पक- -कम् पावा १, १, ६७;

मीसू ६, २, १९.

प्र-कल्पयत्- -यन् अप १, २६, १.

प्र-कल्पित- -तः वृदे ३, ८९; -तैः

अप ६८, ५, २१; २२.

प्र-कल्प्य वैश्रौ १, २ : १०; आगृ.

प्र-कल्स- -साः निसू १, १२ : २१;

-से क्रपा ११, ५८.

प्रकल्स-त्व- -त्वात् काश्रौ २५,

७, १०.

प्र-कल्सि- -सौ मीसू १०, ८, ७.

प्रकल्प्यु( ति-उ )पवन्ध-

-न्धाम्याम् काश्रौ १, ८, २२.

प्र-केत-, °तन- प्र✓कित् द्र.

प्र✓कम्<sup>१</sup>, प्रकामति आपश्रौ ११,

९, १; १६, २, ८; २३, १२, ११;

वौश्रौ; प्रकामतः वौश्रौ ६, २५ :

६; प्रकामन्ति शाश्रौ ४, १५, १<sup>१</sup>;

भाश्रौ १०, ९, ७; प्रकामेत् वौश्रौ

२०, १ : १०; २ : ८x४; हिश्रौ

१६, १, ३९; लाश्रौ १०, १९, ६;

प्र-कामेत् आपश्रौ १६, ११,

९; वैश्रौ १८, ९ : ११; हिश्रौ

a) व्यप. । उस. । b) °भिटी° इति पाठः? यनि. शोधः ( तु. मूको. ) । c) व्यप. । वु. ? ।

d) उपकर्षति इति पाठः? यनि. शोधः ( तु. आपश्रौ ३, ८, ४ प्रोहति इति पाभे., संस्कर्तुः टि. च ) । e) गस. उप. भाप. । f) विप. > नाप. ( प्रकीर्णपापवत्- ) । g) विप. ( इष्टका- ) । h) नाप. ( अत्युत्कृष्टक- ) पापि- ) ।

स्वार्थे कन् प्र. । i) विप. । वस. । j) विप. । वस. > वस. > कस. । k) पा १, ३, ४२ परामृष्टः द्र. ।

l) सपा. प्रकामन्ति <> प्रकान्तात् इति पाभे. ।

११, ४, १०; प्रकामेयुः आपश्रौ  
 १४, २५, २; २१, २, ३;  
 †प्रचक्रमुः आपश्रौ १०, ६, १;  
 हिश्रौ १०, १, ३४; आपमं १,  
 २, १; प्र...कक्रु शंश्रौ ११,  
 ८, ७; †प्र (अक्रन्) ऋश्र २, ५,  
 ५९; †प्र (अक्रमुः) ऋश्र २, ९,  
 ३१; ३२; ४१; साश्र १, ४७७;  
 ४९१; २, २४२.  
 प्रक्रमयति आपश्रौ १, १५, १;  
 ५, १९, १××; भाश्रौ; शाश्र १,  
 १४, ५<sup>a</sup>; आपश्र ४, १६<sup>b</sup>; माश्र  
 १, १७ : १<sup>a</sup>; माश्र १, ११, १८<sup>b</sup>;  
 वाश्र १४, २३<sup>a</sup>; प्रकामयति पाश्र  
 १, ८, १<sup>a</sup>; काश्र २५, ४२<sup>a</sup>;  
 प्रक्रमयेत् वौश्रौ २४, ७ : २;  
 कौश्र १, ८, २८<sup>a</sup>.  
 प्राचिक्रमिषोत् निसू ७, ३ : ७;  
 ८, १२ : ९; १०, ६ : १०<sup>१०</sup>.  
 प्रक्रम<sup>d</sup>-मः काश्रौ १६, ८, १६;  
 वौश्रौ; काश्र ६, २; ९; आपश्र  
 ६, २; वौश्र १ : ६; ४ : १८; २१;  
 हिश्र २, २७; -मम् भाश्रौ ७,  
 ३, २; १२, ५, ४; निसू ८, ६ : ३०;  
 काश्र ६, ३; ७, ३४; -मस्य काश्रौसं  
 २५ : ३; वौश्रौ २६, १० : ३;  
 आपश्र ५, ११; ६, १; हिश्र २,  
 २०; २६; अप १ : १५; -माः  
 आपश्र ५, १; वौश्र ४ : ३; २० :  
 ४; हिश्र २, ७; -माणाम् वौश्रौ  
 २६, २५ : २०; -मात् आपश्रौ

३, १५; ३; वौश्रौ; -मान् काश्रौ  
 ८, ५, २६; २०, ३, ३; आपश्रौ;  
 काश्र ६, २; वौश्र ४ : ५;  
 -माभ्याम् वौश्र २० : ५; -मे  
 आपश्रौ ३, १५, ३; १७, ९; ११,  
 ९, ९; भाश्रौ; आपश्र ६, २;  
 वौश्र १ : ७; हिश्र २, २८; ४३;  
 -मेण वौश्रौ २३, १९ : ७; ९;  
 काश्र ६, ४; वौश्र २० : १५;  
 मीसू २, ४, ३; -मेणऽमेण  
 वौश्र १० : ९; २० : ९; -मेपु  
 काश्रौ ४, ८, १७; ७, २, ३; ८, ३,  
 ७, ४, ५; आपश्रौ; काश्र ६, ३;  
 आपश्र ४, ३; वौश्र ३ : २; हिश्र  
 २, २; -मैः वौश्र १० : ११.  
 प्रक्रम-तृतीय<sup>e</sup>-येन काश्रौ  
 १९, २, २.  
 प्रक्रम-प्रमाण<sup>f</sup>-णानि वौश्र  
 १० : १५; २० : ६.  
 प्रक्रम-मात्र-त्रे माश्रौ १, २,  
 ४, ८; ७, ३, १५; २, २, ३, १३;  
 वाश्रौ १, ६, १, १९.  
 प्रक्रम-त्रेला<sup>g</sup>-लायाम् वौश्रौ  
 १०, ३० : ८, ३१ : १३; ३३ : ९××.  
 प्रक्रम-न्या(स)सा<sup>h</sup>-साः  
 वौश्र १८ : ६; २१ : ६.  
 प्रक्रम-सप्तम-भाग-गान्  
 काश्र ६, २.  
 प्रक्रम-स्थान->नी(य>) )  
 या<sup>i</sup>-या आपश्रौ १४, ५, ११;  
 काश्रौसं २५ : २; हिश्रौ ९, ८, ६;

आपश्र ५, ११; ६, १; हिश्र २,  
 २०; २६.  
 †प्रक्रमा(म-अ)र्थ<sup>j</sup>-र्थः वौश्रौ  
 १९, १ : ७; काश्र ६, २; ४.  
 †प्रक्रमा(म-अर्थ)>र्थ<sup>k</sup>-र्था  
 काश्र २, १९.  
 प्रक्रमो(म-उ)त्यान्<sup>l</sup>-ने काश्रौ  
 ७, १, २६.  
 प्रक्रमण-णम् काश्रौ १६, ७, ३०;  
 वाश्र १४, २७; -णात् माश्रौ ५,  
 २, १२, २०; -णे वौश्रौ २०, ६ : १.  
 प्रक्रममाण-णम् माश्र २, ४, ३.  
 प्रक्रमय्य वाश्रौ २, १, ६, १०.  
 प्रक्रम्य आपश्रौ १, १५, ४, ३,  
 १०, ५××; वौश्रौ; या १४, ७.  
 प्रक्रान्त-न्तम् वौश्रौ २०, ४ : २;  
 ५; वाधुश्रौ ३, ३७ : ४; -न्तान्  
 कौश्र ५, ३, २८<sup>m</sup>; -न्ते वैश्रौ  
 १३, ३ : ६.  
 †प्रक्रान्ति-न्तौ काश्रौसं ३१ :  
 १२<sup>n</sup>.  
 प्र/क्रीड्, प्रक्रीडन्तु वाश्र १३, ४<sup>o</sup>.  
 प्रक्रीडयति काश्र १७, ३;  
 प्रक्रीडयन्तु काश्र १७, २<sup>o</sup>.  
 प्र/कुशु > †प्र-कोश-शाः द्राश्रौ  
 ११, २, १०; लाश्रौ ४, २, ९<sup>o</sup>.  
 †प्रक्ष<sup>p</sup>-क्षः भाशि ९१; -क्षस्य<sup>q</sup>  
 जैश्रौका ६५; साश्र १, ६१०;  
 उनिसू ६ : १५; -क्षे<sup>r</sup> शाश्रौ १८,  
 १५, ५; गौपि २, ४, ७; साश्र १,  
 ४४४; उनिसू ५ : २०.

a) सपा. प्रक्रमयति <> प्रकामयति <> प्रक्रमयेत् इति पाठे. b) पाठे. पृ ९३९ m द.।  
 c) \*क्रमयि इति पाठः? यनि. शोधः (तु. पूर्वे स्थले)। d) = प्रमाण-विशेष- (त्रिपद-), भाप.। वैप १ द.।  
 e) पस.। पूष. = (उपचारतः) प्रक्रममापिका-रज्जु- (तु. विद्याधरः)। f) विप.। वस.। g) = प्रक्रमप्रमाण-देश-।  
 h) विप. (इष्टका-)। वस.। i) = (चतुर्विंशभागसंमिता-) रज्जु-। इह प्रक्रमपदमप्यस्मिन्नेवार्थे हटमिति गोपीनाथः  
 (तु. हिश्रौ.)। j) कस.। k) चस.। l) द्वस. (प्रारम्भ-समाप्ति-)। m) पाठे. पृ १६४९ l द.।  
 n) पाठः? पूर्वेषु समस्तं द.। o) प्र-कोशाः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. द्राश्रौ.)। p) वैप १,  
 २११६ c द.। q) = पृक्ष- (अक्ष-)। पाठे. वैप १, २०८८ e द.। r) वैप १, २११६ f द.।

प्र/क्षर, प्र(अक्षरत्) आश्रौ ८, ९, ७;  
शाश्रौ; प्र(अक्षरन्) शाश्रौ ७,  
१५, १४<sup>२</sup>; क्षुस् १, ३: ८; ऋअ.  
प्र(अक्षाः) साश्र २, ५१०.  
प्र-क्षर(त् >)न्ती-न्तीषु शाश्रौ  
७, १५, १४.

प्र/क्षल, प्रक्षालयते वौश्रौ २, २०:  
३; २८, ८: ४; माश्रौ; प्रक्षा-  
लयति काश्रौ ७, ५, १६; आपश्रौ;  
प्रक्षालयतः माश्रौ २, ५, ४, ३५;  
५, २, ११, ३७; हिश्रौ १०, ५,  
२७; प्रक्षालयन्ते हिश्रौ ७, ३,  
७८; ४, २३; प्रक्षालयस्व भागृ  
२, २८: ५; णप्रक्षालय कौसू ८७,  
६; १२; प्रक्षालयत वौश्रौ ६,  
१०: २१; प्रक्षालयित आपश्रौ  
९, ३, १४; माश्रौ ९, ५, ३; हिश्रौ;  
प्रक्षालयेत् वौश्रौ ९, १७: २०;  
१८: २०; २०, २६: ३८; गोश्रु;  
प्रक्षालयेन् माश्रौ २, २, १, १०;  
प्रक्षालयेयुः लाश्रौ ८, ८, ११.

प्रक्षालापयीत<sup>३</sup> आश्रु १, २४, १०.  
प्र-क्षालन-नम् काश्रौ २२, ६,  
११; आपश्रौ १२, २७, १०;  
वाश्रौ १, ५, २, ५०; वैश्रौ; -ने  
वौश्रौ २०, २६: ३८; -नेन  
काश्रौ १२, ३, २१<sup>३</sup>; विध २३,  
१७.

प्र-क्षालयत्-यन्तम् कौसू ६४, ९.  
प्र-क्षालयमान-नः माश्रौ १, ६,  
२, १.

प्र-क्षालयितृ-तारम् आपश्रु १३, ६.  
प्र-क्षालित, ता-तः वौश्रौ ४, ४;

११; -तम् काठश्रौ ५२; वौश्रौ;  
-ता वौश्रौ ६, २६: २९; -ताः  
वौश्रौ १७, १२: २; -तानि  
वौश्रौ १, ८: १; २, १८: २७;  
३, ४: १५; -ताम् वैश्रौ १४,  
१०: ८; -तायाम् आपश्रौ १,  
२४, १; -ते काश्रौ ८, ३, १९;  
५, २२; वौश्रौ; -तेषु काश्रौ २०,  
६, १४; -तौ कौसू ९०, ११.

प्रक्षालित-पाणि<sup>५</sup>-णिः मागृ  
१, १८, ४; २, १६, ६.  
प्रक्षालित-पाणिपाद, दा<sup>६</sup>-दः  
आश्रु २, ४, ६: २३; वैध ३,  
७, ६; -दा भागृ ३, १२: ९;  
-दौ वौगृ १, ८, १२.

प्रक्षालित-पाद<sup>६</sup>-दः आगृ १,  
२४, ११; -दाः काठश्रौ १३३.  
प्रक्षालित-पाद-पाणि<sup>५</sup>-णिः  
वौश्रौ २९, ५: २४; वौध २, ४, २.  
प्रक्षालित-शिरस्<sup>६</sup>-रसम् वाश्रौ  
२, २, ४, १६.

प्रक्षालिता (त-अ)भ्यक्त-पाणि-  
पाद<sup>६</sup>-दानाम् कौसू ५२, १२.  
प्रक्षालितो(त-उ)पवात<sup>७</sup>-तानि  
आश्रु २, ६, २: २४; कौसू २,  
२९; वौध १, ६, ५; २, ५, १२<sup>६</sup>.

प्र-क्षालय आश्रौ १, १३, १××;  
शाश्रौ; आपश्रौ १५, २१, ७<sup>६</sup>.

प्र-क्षालयमान-नम् वैताश्रौ १०,  
३; -नौ कौसू ७६, २७<sup>६</sup>।

प्र-क्षाम-, क्षायत्-प्र/क्षै द्र.  
प्रक्षाय<sup>७</sup>-वेभ्यः जैश्रौ २६: १५<sup>३</sup>.

प्र/क्षि<sup>८</sup>, प्रक्षिणोति हिश्रौ १२, ३,

१२<sup>६</sup>; णप्रक्षिणोमि आपश्रौ १७,  
१२, ६; हिश्रौ १२, ३, १२;  
प्रक्षिणुयात् आपश्रौ १७, १२, ६;  
हिपि ३: ४.  
प्रक्षिणाति कौसू ४८, १०; या  
६, ५.

प्रक्षीयते अप ५३, १, ५.  
प्र/क्षिप्, प्रक्षिपति वैश्रौ १२, ६: २;  
वैश्रु ७, ६: १०; गौपि १, २,  
३४; कौसू ३१, १२; वैध २,  
७, २; ३; प्रक्षिपेत् जैश्रौका  
२०५; आश्रुगृ.

प्र-क्षिपत्-पन् विध ५, ११०.

प्र-क्षिस-सम् विध २३, २; -साः  
माश्रौ १, २, ६, ६.

प्र-क्षिष्य वौश्रौ २७, ७: ३; माश्रौ;  
वैश्रौ ६, १: ६<sup>६</sup>.

प्र-क्षिष्यमाण-णः ऋश्रु २, ७, ३२;  
अश्रु २०, ७९<sup>१</sup>.

प्र-क्षेप-पः विध १९, ११; -पम्  
अप ७०, ४, १०.

प्र-क्षेपण-णम् भागृ ३, १८: १७;  
वौध ३, २, ८.

प्रक्षेपणी<sup>९</sup>- > ण्या (शी-  
आ)दि-शीनि वैश्रु ५, ४: ३७.

प्रक्षेपणीय<sup>९</sup>-यानि वैश्रौ ११,  
१०: १.

प्र/क्षु, प्रक्षुणोति वौपि १, ३: १४;  
२१; २८.

प्र-क्षुणत-तः या २, २५; -तान्  
माश्रौ ५, १, ८, ५.

प्रक्षुता(त-अ)प्र<sup>१०</sup>-प्रः आपश्रौ  
२२, ४, ७; हिश्रौ १७, २, ९.

a) ख्यन्ताद् आपुगागमः उसं. (भावा ३१, २५)। b) =उदक्-। c) विप.। वस.। d) विप.।  
वस. > दस.। e) विप.। कस. > वस.। f) विप.। कस. उप. =शुष्क-। g) तु. चौसं.। वाताकिल<sup>११</sup>  
इति मैसं.। h) प्रा<sup>१२</sup> इति पाठः? यनि. शोधः। i) अर्थः व्यु. च?। j) वैप १, ११९०: a द्र.। k) पामे.  
पृ ३२६ m द्र.। l) णम् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. ऋअ.)। m) =पान्नविशेष-। n) अर्हार्थान्शु  
छः प्र. उसं. (पा ५, १, ६९)।

प्र. १ > प्र-क्षाम- -मः आपश्रौ ९,  
 १५, २०; भाश्रौ ९, १८, ९;  
 हिश्रौ १५, ४, ४०.  
 प्र-क्षायत्- -यतः<sup>a</sup> आपश्रौ ४,  
 ११, ५; १६, १; भाश्रौ ४, १७,  
 २; हिश्रौ ६, ३, ८; ४, १८.  
 प्र. १ खिद् > प्र-क्खिदत्- -दत्ते तैप्रा  
 १४, ८१.  
 प्र. १ प्रखुदसि<sup>b</sup> शाश्रौ १२, २३, ४.  
 प्र. १ ख्या > प्र-ख्या- > ख्या (ख्या-  
 अ)भाव- -वात् मीसू १, १, २२.  
 प्रख्या(ख्या-अ)विशेष- -वात्  
 पावा १, २, ६४.  
 प्र-ख्यात- -तम् या ३, १९; ५, ८.  
 प्रख्यात-तम- -मेन या ३, १३.  
 प्र-ख्यापन- > नीय- -यम् या  
 ५, ८.  
 प्र-ख्याय अप्राय २, ४.  
 प्रख्यायत्- -यतः शाश्रौ ४, १२,  
 १०१.  
 प्रग अप ४८, १५.  
 प्रगदिन्- ( > प्रागच- पा. ) पाग  
 ४, २, ८०.  
 प्र. १ गम्, प्रो (प्र-उ) ... अगमन् आश्रौ  
 ६, ४, १०१; प्रो (प्र-उ अगमन्)  
 शाश्रौ ९, १७, ३१.  
 प्र-जिगांसत्- -सन् शाश्रौ १६, २२,  
 १०.  
 प्र. १ गल्भ् > प्र-गल्भ<sup>d</sup> - -ल्लभः वौश्रौ  
 १७, ५० : १६; शैशि १६३;  
 याशि १, २९.  
 प्र. १ गा, प्र. १ जिगाति वृदे ६, ३०१;

प्र. १ (जिगाति) आश्रौ १, २, ७;  
 ४, १३, ७; ७, ८, १; शाश्रौ.  
 प्र. १ गात् आश्रौ १०, ८, ७;  
 आपश्रौ; वा ६, २२<sup>e</sup>; प्र. १ ...  
 अगात् आपश्रौ १, ३, ५; ५, १;  
 वौश्रौ; प्र (गुः) कौसू ३४,  
 २०१; प्र. १ गाः आश्रौ ४, १०,  
 ५; शाश्रौ ५, १४, १८; प्र. १ ...  
 गाः वौश्रौ १०, ४ : १११;  
 प्र. १ गाम आश्रौ २, ५, ४<sup>f</sup>; १९,  
 ३६<sup>g</sup>; ६, ६, १८; आपश्रौ.  
 प्र-गाथ- प्रमृ. प्र. १ गै द्र.  
 प्र. १ गाह् > प्र-गाहण- -णम् आश्रौ  
 १२, ८, ८.  
 प्र-गाह्य आपश्रौ ८, ७, २७xx; हिश्रौ  
 प्र-गीत- प्र. १ गै द्र.  
 प्र. १ गुण<sup>h</sup> - -णौ कुसू २, ६ : ११; २६.  
 प्र. १ गृ (अववोधने) > प्र-जागर-  
 -रः शंघ १५६.  
 प्र. १ गृभ्, ह्, प्र. १ गृभायत् शाश्रौ १२,  
 १९, ३१.  
 प्र. १ गृह्णाति काश्रौ ३, ६, १७xx;  
 प्र. १ गृह्णाति वृदे २, १४२; प्र. १ ...  
 ह्नीयात् काश्रु ७, १८.  
 प्र-गृही(त >) ता- -तायाम् वाधुश्रौ  
 ४, ५ : १३.  
 प्र. १ गृहीत- ( द > ) दा<sup>i</sup> - -दाः  
 ऋप्रा २, ५४.  
 प्र-गृह्वत्- -ह्वन्तः वौश्रौ १८, २१ : ६.  
 प्र-गृह्य शाश्रौ १, ६, १०xx; वौश्रौ;  
 या २, २६.  
 प्र-गृह्य<sup>l</sup> - -ह्यः ऋप्रा १, ६८; शौच

१, ७३; -ह्यम् ऋप्रा ११, ३९;  
 शुप्रा १, ९२; ४, १८; ८८; ७,  
 ७; पा १, १, ११; -ह्यस्य ऋप्रा  
 १०, २०; -ह्यः ऋप्रा १, ७३;  
 २, ५१; शौच ३, ३३; पावा  
 १, १, ११; -ह्याणाम् अप्रा ३,  
 १, २; -ह्ये शुप्रा ४, १९४; -ह्यौ  
 शाश्रौ १, २, ७.  
 प्र. १ गृह्य-प्लुत-प्रतिषेध- -प्रसङ्ग-  
 ङ्गः पावा ६, १, १३७.  
 प्र. १ गृह्य-मध्य- -ध्ये अप्रा २, ३,  
 १०.  
 प्र. १ गृह्य-संज्ञा- -ज्ञायाम् पावा १,  
 १, १२; ६, १, ८४; ८, २, ६.  
 प्र. १ गृह्या( ह्य-अ ) वृगृह्य-चर्चा-  
 -र्चायाम् शौच ४, १२३.  
 प्र. १ गृह्या( ह्य-अ ) वृगृह्य-समापाद्या-  
 ( ह्य-अ ) न्तगत- -तानाम् शौच  
 ४, ११७.  
 प्र-ग्रह(वप्रा.)<sup>k</sup> - पा ३, ३, ५२<sup>l</sup>;  
 ५३<sup>m</sup>; -इह<sup>n</sup> कौशि ६८; -हः  
 ऋप्रा १, ८, १२<sup>o</sup>; -हस्य कौशि  
 ४८<sup>p</sup>; -हाः तैप्रा ४, १<sup>q</sup>; -हेभ्यः  
 हिश्रौ २२, २, ३३<sup>r</sup>; -हेः आपश्रौ  
 १४, २६, १<sup>s</sup>.  
 प्र. १ ग्रह-त्तादि- -दिषु तैप्रा १, ६०.  
 प्र-ग्रहण- > ण-मन्त्र- -न्त्रेण  
 शाश्रौ ७, ५, १.  
 प्र-ग्राह- पा ३, ३, ४६; ५२; ५३.  
 प्र. १ गृ ( निगरणे ), प्रगिरन्ति आश्रौ  
 ६, १३, १०; प्रागिरत्, प्रागि-  
 रताम् वाधुश्रौ ४, १९ : २९;

a) पामे. वैप २, ३ खं. प्रक्षायतः तैत्रा २, ४, १, २ टि. द्र. । b) पाठः? शोधार्थं वैप १, १२०३  
 ३, ० द्र. । c) पाठः? प्रक्षायतः इति शोधः ( तु. सपा. तैत्रा २, ४, १, २; C. च ) । d) वैप १ द्र. ।  
 e) पृ ६८३ र् द्र. । f) प्रणम इति पाठः? यनि. शोधः ( तु. आन., BC. च ) । g) प्रमाम इति पाठः? यनि.  
 शोधः ( तु. आन. ) । h) अर्थः व्यु. च ? । i) =संहिता-विशेष- । वस. । j) =पारिभाषिक-संज्ञा- ।  
 k) कर्मादिषु अप् प्र. । l) =तुला-सूत्र- । m) =अध्व-रश्मि- । n) वृद्धितः पाठः । o) = ( लुक्-लुक्वयोः )  
 दण्ड- ( तु. संस्कृत्युः टि. [ गोट १, ३, ९ ] ) । p) =प्र-गृह्य- । q) अर्थः ? ।

प्रगिरिक् द्राग् ३, ३, १३.  
 प्रगे<sup>a</sup> लाश्रौ ८, ३, २; गोग् २, १०, ६.  
 प्रगे-त्तन- पा, पावा ४, ३, २३.  
 प्र√गौ, ऋप्रगायामसि वाधूश्रौ ४,  
 ४७ : ८; आपमं १, ३, ५;  
 पाग् १, ७, २?<sup>b</sup>; आम्रिग् १,  
 ५, ३ : १६; वौग् १, ४, ९;  
 भाग् १, १६ : ५; माग् १, १०;  
 १५?<sup>c</sup>; हिग् १, २०, १?<sup>d</sup>;  
 ऋप्रगायत् आश्रौ २, १५, २; ७,  
 ८, २; शाश्रौ; या ७, २; प्र...  
 गायत् आश्रौ ७, ८, १; शाश्रौ  
 १२, १०, ७; ऋप्र(गायत्) आश्रौ  
 ६, ४, १०; ७, ५, ९; ८, ४, १;  
 शाश्रौ; प्रगायेत् माशि ६, ६;  
 नाशि १, ६, १५.  
 प्र-नाथ<sup>e</sup> -थः आश्रौ ५, १४, ५;  
 १८; शाश्रौ ७, १४, ७××;  
 लाश्रौ; ऋअ ८, १; १०; ४८; ६२;  
 वृदे ६, ३५; ३८; ५०; ६;  
 शुअ ३, २१०; अअ २०, ९६;  
 १०६; १४६; ९३; -थम् शाश्रौ  
 ६, ९, ७; ७, १९, १०××; ऋअ;  
 -थाः आश्रौ ५, १०, १९; १४,  
 ७××; लाश्रौ; ऋअ १, ११,  
 १६; -थान् आश्रौ ७, ३, ४;  
 १२, ८; ८, ४, १६; शाश्रौ;  
 -थानाम् आश्रौ ५, १५, २०;  
 निसू ५, ५ : २; -थाय शाश्रौ

७, २१, ८; वैताश्रौ २०, १६;  
 -थे आश्रौ ५, १५, ६; ८, ६,  
 १८; मीसू ९, २, २७; साअ १,  
 ४०; -थेन शाश्रौ १०, १३,  
 १५; ११, १२, ८; वृदे ३, १११;  
 -थेभ्यः आश्रौ ५, १०, १३; ९,  
 ५, ६××; -थेषु आश्रौ ६, ५,  
 २१; शाश्रौ १२, ९, ८; लाश्रौ;  
 पा ४, २, ५५; -थौ आश्रौ ५,  
 १५, २; १६, २<sup>h</sup>; २०, ६××;  
 शाश्रौ.  
 प्रागाथ<sup>i</sup> -थः<sup>j</sup> ऋअ २,  
 ८, ६०; ६६; ७२××; -थम्<sup>k</sup>  
 ऋअ २, १, ३६; ३९××; ऋप्रा  
 १, ८७.  
 प्रागाथी<sup>l</sup> -थीम् आश्रौ  
 ४, ७, ४.  
 १प्रागाथि ( क > )  
 का<sup>m</sup> -काम् शाश्रौ ५, १०, २६.  
 २प्रागाथिक<sup>n</sup> -कम् छसू  
 ३, ३ : ११; ४ : १०; ५ : ५;  
 मीसू ९, २, २५; -कानि लाश्रौ  
 ६, २, १६; निसू ५, ५ : १९?<sup>p</sup>;  
 १०, ६ : ८.  
 प्रागाथ-कारम् द्राश्रौ २, ४, १५;  
 लाश्रौ १, ८, ११.  
 प्रागाथ-तृच-सूक्ता(क्त-आ)गम<sup>q</sup>-  
 मेपु आश्रौ ७, १, २२.  
 प्रागाथ-वृहती- -तीपु निसू ६,

११ : २४.  
 प्रागाथ-शब्द- -व्दात् उनिसू ५:  
 ३७.  
 प्रागाथ-स्थ- -स्थे शाश्रौ ७, २५,  
 ९.  
 १प्रागाथा( थ-अ)न्त- -न्तेषु  
 आश्रौ ८, २, २०.  
 २प्रागाथा( थ-अ)न्त<sup>r</sup> -न्तम्  
 ऋअ २, ८, १७; ७७.  
 ३प्रागाथा( थ-अ)प्रभव- -वात्  
 लाश्रौ १०, ६, ८.  
 प्रागाथा(थ-अ)यन- -नानि निसू  
 ५, ३ : ७.  
 प्रागाथी√क > प्रागाथी-कार-  
 -राय निसू ७, २ : १३.  
 प्र-गीत- -ते नाशि १, ५, १६.  
 प्र√गमन् > षप्र-गमन्तु- -ऋगमन्ता  
 आपमं १, १, १; वौग् १, १, १४;  
 वैग् ३, २:४; ऋअ २, १०, ३२.  
 प्र√ग्रथ्, न्थ्, प्रग्रथनाति वौश्रौ ६,  
 १७ : १७; १०, ११ : १८××;  
 वैश्रौ १९, ६ : ५४; प्रग्रथन्ति  
 वौश्रौ ६, १:१८; १०, १७:७××.  
 प्र-ग्रथन- -न्तम् वैताश्रौ २२, ९;  
 २५, ५.  
 प्र-ग्रथित, ता- -तः वौश्रौ ८, ५ :  
 २; -ता वौश्रौ ११, ६ : १२;  
 १२, ७ : २६.  
 प्र-ग्रथ्य वौश्रौ ६, १२ : ६××; वैश्रौ.

a) = प्रातर। सप्त१ < प्रग-। अथ्य। व्यु. ? < प्र√गम् इति PW. प्रस्., < प्र√गौ इति अभा. ।  
 b) प्रजायामस्य इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. [अंसतः] लाधा. Old. च) । c) प्रगायामि, अस्य इति पाठः ? यनि.  
 शोधः [तु. b, d टि. च] । d) प्रजायामसि इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सपा. पूर्वाणि स्थलानि, Old. च) ।  
 e) = द्व्यृच- (तु. आश्रौ ५, १४, ७ ऋप्रा १८, १) वा (छन्दोऽन्तरेण प्रग्रथनात्) तृच- (तु. सा [ऐत्रा ३, १७],  
 पाका [४, २, ५५] च) वा । शेषं वैप १ द्र. । f) = ऋवि-विशेष- । g) = छन्दो-भेद- । h) एकतरत्र  
 तु. आन. । i) अपत्यार्थे तस्येदमित्यर्थे च अण् प्र. । j) = प्रागाथापत्य- । k) = सूक्त- । l) ऋच्- ।  
 प्रागाथर्षिष्टा- इति संस्कर्तुः टि. । प्रागाथसंबन्धिनी इति C. [शाश्रौ ५, १०, २६] । m) = प्रागाथी- । स्वार्थे के ह्रस्वः ।  
 n) विप. । तस्येदमीय् ठक् प्र. । o) = सामच्- । p) प्रागा<sup>o</sup> इति पाठः ? यनि. शोधः । q) द्वस्. > षस्. ।  
 r) विप. । षस्. ।

प्र/ग्रन्थ प्र/प्रथ द्र.

प्र-ग्रह- प्रमृ. प्र/ग्रम्, ह् द्र.

प्रग्रीव- पाग २, ४, ३१.

प्र-घण- प्र/ह्व द्र.

प्र/घत् > प्र-घात्<sup>१</sup> - > षिन्<sup>२</sup> -

- षिनिः<sup>३</sup> काश्रौ ५, ५, ९; शुभ्र

१, २, १२; - षिन्नी आपश्रौ १७,

१६, १८; वैश्रौ १९, ६ : १०८;

हिश्रौ १२, ५, ३०.

ऋषिवात्<sup>४</sup> - त्यान्<sup>५</sup> आपश्रौ

८, ६, १९; काठश्रौ ३४, १०;

वौश्रौ ५, ७ : १२; भाश्रौ ८,

८, ६; नाश्रौ १, ७, ४, १२;

वाश्रौ १, ७, २, ३०; वैश्रौ ८,

११ : १०; हिश्रौ ५, २, ४७.

प्र-घाण- षात्, प्रवान् प्र/ह्व द्र.

प्र/घृप् > प्र-घृष्य कौस् २६, २२.

प्र/चक्ष्, प्रचक्षते कप्र २, ५, ११;

८, २१ x x; अप.

प्रचक्षते अप ६३, १, ६.

प्र-चक्षण- पाग ८, १, २७.

प्र-चरुड- षडः चव्यू ४ : १९.

प्रचण्ड-तर- रः चव्यू ३ : १२.

प्र-चय- प्रनृ. प्र/चि (चयने) द्र.

प्र/चर्, प्रचरति काश्रौ १४, ५, १९;

१५, ६, ३५; आपश्रौ; वैश्रौ १६,

२० : ९<sup>६</sup>; ऋषि... चरति<sup>७</sup> आश्रौ

४, ७, ४; शाश्रौ ५, १०, १८;

प्रचरतः आपश्रौ ८, ७, ९; १२,

२१, ७ x x; भाश्रौ; प्रचरन्ति

आश्रौ १०, ९, ६; शाश्रौ

१४, ४०, १२; काश्रौ; ऋषि

(चरन्ति) काश्रौ १५, ६,

८<sup>६</sup>; शुभ्र १, ६, १३; ऋषिचरन्तु

आपश्रौ १६, २५, २; वौश्रौ १०,

३३ : ५; वैश्रौ १८, १७ : ५१;

२०, ३५ : ७; वौश्रौ १, ३, ३४;

ऋषिचर, > रा शाश्रौ १२, २३,

४; काश्रौ ६, ६, १८; वौश्रौ;

ऋषिचरत, > ता आपश्रौ १५,

६, २६, ३; वौश्रौ ३, २६ : ९;

२, ६ : ६<sup>६</sup>; १४, ९ : २६; भाश्रौ

११, ६, २६; वैश्रौ १३, ८ :

१६; हिश्रौ १४, २, ८<sup>६</sup>; वैताश्रौ;

काश्रौ<sup>८</sup> २६, १२; ४५, १२; प्रचरेत्

आपश्रौ १, १, २८; ३० x x;

काश्रौसि ३०, ७; ३२; ९<sup>६</sup>; ११<sup>६</sup> x x;

वौश्रौ; प्रचरेयुः आश्रौ ३, १०,

२५; शाश्रौ.

ऋषिचरिष्यामः काश्रौ २६, २,

२५; आपश्रौ १५, ६, १; वौश्रौ.

प्र-चरण<sup>९</sup> - णः<sup>१०</sup> वाघृश्रौ ३, १०० :

८ : - णम् काश्रौ २, १२, ८;

भाश्रौ ८, १९, १; नाश्रौ १, ३,

२, २०; वैश्रौ १४, ५ : ६; - णात्

काश्रौ २, ६, ३१; नाश्रौ; - णाय

कप्र २, १, २<sup>३</sup>; - णे अप ६५,

२, ५.

प्रचरणी<sup>११</sup> - णी वाघृश्रौ ३,

१०० : ७; - णीम् काश्रौ १,

२, १९; आपश्रौ; - ण्या काश्रौ

८, ७, १; २, ३, १; १०, ६, १४;

आपश्रौ; - ण्याम् काश्रौ २५,

१०, १०; १४; आपश्रौ.

प्रचरणी-डण्ड- ण्डे वैश्रौ

१४, १४ : १२.

प्रचरणी-क्षेप- षात्  
आपश्रौ १२, ६, ५; - षेण काश्रौ  
१०, ६, १७.

प्रचरणी-संभव- चम्  
काश्रौ १, ३, १३.

प्रचरण-कल्प- च्यः आपश्रौ  
१४, ४, १५; वौश्रौ २८, ४ : ७;  
६ : १७; हिश्रौ ४, ५, ६५ x x.

प्रचरण-काल- ले आपश्रौ ६,

२९, २२; ८, २, १७ x x; वाश्रौ.

प्रचरण-योग- षात् काश्रौ १६,

१, १५.

प्रचरण-वेला- ल्यायाम् नाश्रौ

१, ६, ४, १८.

प्रचरणा(ण-श्वा)दि- दि आपश्रौ

१८, २०, १.

प्रचरणीय- चम् आपश्रौ १५

७, २; १४, ७; वौश्रौ ९, ५ :

२१ x x; - ये भाश्रौ ११, १४,

९; वैश्रौ १३, १६ : १९; हिश्रौ

२४, ६, ८.

प्रचरणीयो (च-ञ) षात्-

हरण- षात् वैश्रौ १३, १७ : २.

प्र-चरत्- रन्तः वौश्रौ २६, १२ :

२१; - ऋन्तौ आपश्रौ १४,

२८, ४; हिश्रौ १५, ७, १२.

प्र-चरित- तम् आपश्रौ २२, ७,

१७; १७, ५; हिश्रौ १६, ३, ३६;

- ते आपश्रौ १४, २, ६; वैश्रौ.

प्र-चरितुम् वैश्रौ १५, २५ : ११.

प्र-चरितोत्(ः) वैताश्रौ १६, ५.

प्र-चरिष्यत्- ष्यन् वौश्रौ १३, २ :

८; २५, १६ : ९; ३३ : ११.

a) वैप १ द्र. i b) पामे. वैप २, २११८ h द्र. i c) ष्वा इति षाटः? यनि. शोषः (ह्र. ते १, ८, ३, १; आपश्रौ. च)। d) सप्र. आपश्रौ १३, १६, १२ प्रतिपद्यते इति पामे. i c) पामे. वैप २, २११८ ० द्र. i f) पामे. वैप १, १३११ II द्र. i g) पामे. वैप १, २११९ b द्र. i h) पामे. वैप १, २१६३ i द्र. i i) यत्. प्रवरेत्, प्रवरे इति पाठौ? यनि. शोषः (ह्र. आपश्रौ १, १, २८; ३०)। j) उप. भावकरपदोद् ल्युट् प्र. i k) = छुट्-1 l) प्रचरणीयाः इति जीर्ण.।

वाधूश्री ३, १०० : १; ४, ४४ : ४; -प्यन्तः आपश्री १५, ५, १; वीश्री १४, ९ : २३; माश्री ११, ५, १; हिश्री २४, २, १.  
 प्र-चर्च काश्री ८, ३, ६××; आपश्री. प्र-चर्चा- र्या आपश्री ३, १०, २८; -र्याः हिश्री २२, ३, २०.  
 प्र-चार- पाग ५, २, ३६; -रः वैश्री १७, ८ : १२; विध १८, ४४.  
 प्रचार-रथ्या- रथ्यानाम् शंघ २७८.  
 प्रचारित- पा ५, २, ३६.  
 प्र-चार्य काश्रीसं २९ : १५.  
 ?प्रचरतिम् वाश्री १, ७, २, १५.  
 प्र-चरित- प्रम्. प्र✓चर् द्र.  
 प्र✓चल्, प्रचलति अप ३७, ३, १; प्रचलेत् मागृ २, १५, ६.  
 प्र-चल- -लः अप ७१, ५, ५.  
 प्र-चलित- -तैः विध १, ३५.  
 प्र✓चि (चयेने), प्रचिन्वीत गोगृ ३, ५, १४; जैगृ १, १९ : २४.  
 प्र-चय<sup>a</sup>- -यः ऋप्रा ३, १९; तैप्रा १८, ३; २१, १०; शैशि; -यम् उस् ८, १३; माशि ५, ७; याशि १, ५५; भाशि २; -यान् याशि १, ५९; -ये पावा २, १, १.  
 प्रचय-पूर्व- -र्वः तैप्रा १९, २.  
 प्रचयपूर्व-क- -कः कौशि २७.  
 प्रचय-स्थ- -स्थम् माशि ५, ३; नाशि २, ३, १; -स्थानि नाशि २, ७, ८.  
 प्रचय-स्वर- -रः ऋप्रा ३, २२; -रम् उस् ८, ११; १८; -रे ऋप्रा ३, २७.

प्रचयस्वर-धर्म-वत् ऋप्रा ३, २२.  
 प्र-चित, ता- -तः<sup>b</sup> माशि २, ४; ५; -तम् माशि ५, ६; -ता<sup>c</sup> याशि १, ७१; -तात्<sup>d</sup> माशि ५, ६; -ताम्<sup>e</sup> याशि १, ७१; -ते माशि ४, १२<sup>b</sup>.  
 †प्र-चिन्वत्- -न्वद्भयः भागृ २, ९ : १३; -न्वन्तः भागृ २, ९ : १३.  
 प्रचिक<sup>d</sup>- (> प्राचिक्य- पा.) पाग ५, १, १२८.  
 †प्र✓चित्, प्र...चेति कौस् ५, २.  
 प्रचेतयति या ११, २७<sup>f</sup>; प्रचेतय आश्री ६, २, ९; ३, ११; छुस् १, ७ : ५.  
 †प्र-चेतन<sup>e</sup>- -ोन आश्री ६, २, ९; ३, ११.  
 प्र✓चुद्, प्रचोदयति भाश्री ८, ११, १९; †प्रचोदयात् शाश्री २, १०, २; वीश्री ३, ९ : ५; आम्रिय; प्रचोदयेत् शांश्री ४, ८, १२; वीध २, १०, ४३.  
 †प्र-चोदयत्- -यन् या ६, ७; -यन्तौ या ८, १२<sup>f</sup>.  
 प्र-चोदयमान- -नौ या ८, १२.  
 प्र-चोदित- -तः वृदे ५, ७५; ऋप्रा १५, ८; शैशि २४०.  
 प्रचुर<sup>g</sup>- > प्राचुर्य- > र्य-दंश- मशक- -कैः अप ६५, २, ६.  
 प्रचुल<sup>h</sup>- (> प्राचुल्य- पा. L > प्रा- चुल-] पा.) पाग ४, १, १०५; २, १११.  
 प्र✓चृत्, प्रचृतति कौस् ५, १८; ६६, २९.

प्र-चृतत्- -तन्तः कौस् ३४, १७.  
 †प्र-चेतस्<sup>e</sup>- -तः ऋप्रा ४, ४०; -†तसः आपश्री २०, २३, ४<sup>h</sup>; वीश्री<sup>i</sup> १५, ३८ : १; २८, १ : २३; वैश्री २०, ३३ : १३<sup>h</sup>; हिश्री १४, ५, १३<sup>h</sup>; आम्रिय २, ३, ५ : १२<sup>h</sup>; कागृ ४०, ९; या ९, २०<sup>f</sup>; शुपा ४, ७८; पावा ८, २, ७०<sup>f</sup>; -तसम् अश्री ४, ५३; -तसा माश्री ५, २, ८, २०<sup>f</sup>; -तसौ ऋश्री २, १, १३; -†ताः शाश्री ६, १२, १६; आपश्री १७, ७, ७; २४, ९; वीश्री; वैश्री १९, ५ : ४२<sup>h</sup>; या ८, ५<sup>f</sup>.  
 †प्रचेतस्<sup>e</sup>- -ताः ऋश्री २, १०, १६४; अश्री ६, ४५; २०, ९६.  
 प्राचेतस- -सः शंघ २९०.  
 प्र✓च्छद्, प्रच्छादयति काश्री २०, ६, १५; आपश्री १५, १५, १<sup>h</sup>××; काठश्री; प्रच्छादयन्ति कौस् ८१, २५<sup>h</sup>; प्रच्छादयेत् पागृ २, ६, २२; प्रच्छादयेत् वीश्री २६, २७ : ३; वैश्री १८, १६ : ८१; ८४; आम्र. प्र-च्छन्न, ज्ञा- -ज्ञः वीश्री २२, १९ : ४; -ज्ञा आपश्री ११, ५, ६<sup>h</sup>; -ज्ञाः विध १६, १७; -ज्ञाम् वैश्री १४, ४ : १७<sup>h</sup>.  
 प्रच्छन्न-पाप- -पाः विध २२, ९०; -पानाम् वाध २०, ३.  
 प्र-च्छाद<sup>i</sup>- -दम् वीश्री २५, ३० : १२; २६, २७ : २.  
 प्र-च्छादन- -नम् वीश्री १९, १० : ५५; माश्री २, ४, ५, ३; वीध १,

a) = एकश्रुति- ( तु. पा १, २, ३९) । b) = प्र-चय- । c) = ऊष्म-भेद- । d) अर्थः व्यु. च ? । e) वैप १ द्र. । f) = बहुल- । व्यु. ? । g) = ऋपि-विशेष- । व्यु. ? । h) पाभे. वैप १, २१२० b द्र. । i) °तः इति पाठः ? यनि. शोधः ( तु. आपश्री १७, ७, ७) । j) °यति इति मूको. । k) सपा. °ज्ञा <> °ज्ञाम् इति पाभे. । l) नाप. । उप. घन् प्र. ।

६, १८.

प्रच्छादना(न-अ)र्थ- र्थस्य हिश्रौ  
७, ८ : १७.

प्रच्छादित- -ताय विघ ८७, ६.

प्रच्छाद्य शांश्रौ ४, १४, १७; काश्रौ.

प्रच्छिद्, प्रच्छिनत्ति वीश्रौ २,  
९ : २१; आश्रु १, १७, १०;  
द्राश्रु १, २, १२.

प्रच्छिद्यते अप ६७, ६, ३; प्रच्छि-  
द्यन्ते अप २३, ४, ४.

प्रच्छेद्यति वीश्रौ ४, १ : ३०.

प्रच्छिद्य आपश्रौ ९, १९, १२; १४,  
३३, २××; वीश्रौ; प्रच्छिद्यप्र-  
च्छिद्य आश्रु १, १७, ११.

प्रच्छिन्न- > प्रच्छिन्ना (ज्ञ-अ)प्र<sup>३</sup>-  
-प्रम् आपश्रौ २४, १३, ११;  
-प्रेण आपश्रौ १५, १०, ६.

प्रच्छेद- -इम् काश्रौ ६, ९, १०;  
८, २, २१; वीश्रौ ४, १० : ७.

प्रच्यु, प्रच्यवते क्षुस् ३, १ : १४;

१० : २०××; निस्; ङप्रच्य-  
वस्व आपश्रौ १०, २९, १; वीश्रौ  
६, १६ : ५; भाश्रौ; हिश्रौ ७, ३,  
१८<sup>b</sup>; ङप्रच्यवेयाम् कौस् ८२,  
४०; अश्रु १८, ४; प्रच्यवेत् क्षुस्  
३, ३ : १६; ४ : ५; ङप्र<sup>३</sup>-  
च्यवेत् आपश्रौ १७, १७, ७;  
वाधूश्रौ २, ९ : ४; हिश्रौ १२,  
५, ३७.

प्रच्योष्ट निस् ६, ६ : १७; ११ :  
३६××; प्र<sup>३</sup>च्योष्ट वाधूश्रौ  
४, १६ : १४; प्रच्योपाताम्  
निस् ८, ७ : ४०.

प्रच्यावयति वीश्रौ ८, १५ : ७;  
वाधूश्रौ ४, ८८ : ९; हिश्रौ ९,

४, ३८; निस् ७, ६ : १४<sup>१०</sup>;  
प्रच्यावयतः वैश्रौ १२, २० : ९;

प्रच्यावयन्ति आपश्रौ ७, २८, ४;  
वीश्रौ ६, १६ : ५; निस् ९,

५ : ४; प्रच्यावयतु या ७, ९<sup>१</sup>;  
ङप्र<sup>३</sup>च्यावयतु आश्रौ ६, १०,

१९; आमिगृ ३, ५, ४ : १; वीपि  
१, ३ : १२; या ७, ९; ङप्रच्या-

वयन्तु आपश्रौ १३, १६, १;  
वीश्रौ ८, १५ : ८; वैश्रौ १६,

१९ : ८; हिश्रौ ९, ४, ३८;  
ङप्रच्यावयतात् काश्रौ ६, ८, १;

वीश्रौ ४, ८ : ८; प्रच्यावयेत्  
वीश्रौ २०, २९, ५; २८, ११ : १६.

प्रच्यावन- -ने वीश्रौ २०, २९ :  
५; २१, २३ : २३.

प्रच्यावनी<sup>d</sup>- -नीम् आमिगृ ३,  
५, २ : १५; वीपि १, २ : १८.

प्रच्यावयत्- -यन् वृदे २, ६०;  
-यन्तः वीपि १, ४ : २५.

प्रच्युत, ता- -तः हिश्रौ ९, ५, ३६<sup>१</sup>;  
वैताश्रौ २४, १; -तम् निस् ५,

१ : ११; २०××; -ङतस्य काश्रौ  
६, ८, १; वीश्रौ ४, ८ : ८;

-तानि अप ५८<sup>३</sup>, १, ५; -ताम्  
निस् ३, ९ : ३७; ४२; ८, ७ :

३३; अश्रु ८, ९<sup>१</sup>; -ते काश्रौ ६,  
८, २; भाश्रौ ७, १८, ३; निस्

८, ७ : ३९; -ती निस् ७, ९ : ६.  
प्रच्युति- -तिम् आश्रौ २, १०,  
१४<sup>१०</sup>.

प्रच्युत्, प्रच्योतयति वीश्रु १, ९, ६.  
प्रच्युति(त>)ता- -तायाम् गोश्रु  
३, १०, ३०.

प्रजन, प्रजायते शांश्रौ ३, ८, २७<sup>१</sup>;

आपश्रौ २३, १४, १५<sup>१</sup>; वीश्रौ;  
या १४, ६; प्र<sup>३</sup>जायते शांश्रौ

१०, १४, ८<sup>१</sup>; आपश्रौ २१, १, १;  
२२, २२, ८; वाधूश्रौ; प्रजायन्ते

वीश्रौ २०, १० : १७; वाधूश्रौ;  
प्र<sup>३</sup>जायन्ते शांश्रौ १०, १४,

८<sup>१</sup>; आपश्रौ २३, २, ९; १७;  
ङप्रजायसे आपश्रौ ८, २१, १;

वीश्रौ ५, १८ : १९; हिश्रौ;  
ङप्रजायताम् आपमं १, ८, १;

माश्रु २, १८, २; ङप्र<sup>३</sup>जायताम्  
काश्रौ २५, १२, ८; आपश्रौ ९,

१७, १; हिश्रौ १५, ७, २३;  
प्र(जायताम्) वृदे ७, १०<sup>३</sup>;<sup>१</sup>;

ङप्र<sup>३</sup>जायन्ताम् कौस् ११४,  
२; १२८, २; ङप्रजायस्व आपश्रौ

७, १३, २; वीश्रौ ४, ५ : ११<sup>३</sup>;  
भाश्रौ; ङप्रजायध्वम् आश्रौ २,

५, १७; शांश्रौ १२, १५, १<sup>३</sup>;  
आपश्रौ; हिश्रौ १५, ७, २३<sup>३</sup>;

द्राश्रौ ७, ३, २<sup>३</sup>; वीश्रु १, ५, ८<sup>३</sup>;  
वेत् ३, ५ : ६<sup>३</sup>; अश्रु ५, ५<sup>३</sup>;

प्रजायावहे वाधूश्रौ ४, १९ :  
४२; ३३ : ५; प्राजायत शांश्रौ

१४, ६, १; ६५, १; ६८, १;  
वीश्रौ १६, २८ : १८; प्राजाये-

ताम् वाधूश्रौ ४, १९ : ४५;  
प्राजायन्त शांश्रौ १४, ६०, १;

वीश्रौ १४, २० : ५; प्रजायेत  
आपश्रौ १४, १३, ३; माश्रौ ५,

२, १४, १४; हिश्रौ; प्रजायेरन्  
वाधूश्रौ ४, ३१ : ७; ङप्रजायेय

शांश्रौ १०, १४, २; आपश्रौ १४,  
१३ : ६; वाधूश्रौ ४, ५ : १;  
९४ : १.

a) विप. । वस. । b) प्रच्यवस्व इति पाठः? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ.) । c) प्रा<sup>३</sup> इति पाठः?  
यनि. शोधः । d) =कुम्भी-विशेष- । e) पाभे. वैप १ हस्तच्युतिम् मै २, ७, १२ टि. द्र. । f) पाभे. वैप १,  
२, १२२ i द्र. ।



†प्रजज्ञे शांश्री ४, १२, १०; वौश्री; †प्र...जज्ञे हिश्री २२, ४, १४; चाअ ४१: ९; प्रज-निष्यन्ते वौश्री १४, २०: ३; †प्रजनिष्येथे<sup>६</sup> आपश्री ५, ८, ८; वौश्री २, १५: १३; †प्रजनिषीय आपश्री ४, १०, १<sup>०</sup>; माश्री १, ४, २, ६<sup>०</sup>; वाश्री १, १, ३, ६<sup>०</sup>; हिश्री ६, ४, १<sup>०</sup>; ४२; †प्र...जनि-षीय आपश्री ४, १०, १; वौश्री २७, १४: ५; वाश्री १, १, ३, ६; †प्रजनिषीमहि आपश्री ९, ६, ७; वौश्री ९, १६: १२; हिश्री १५, २, १४; †प्राजनि शांश्री ३, २०, ४; काश्री २५, २, २४; आपश्री; प्र...धजनिष्वहि वाधूश्री ४, १९: ४६.  
प्रजनयति †वौश्री १३, ७: १९; १४, २४: ३६××; माश्री ६, १०, ७; हिश्री १५, १, ७६; प्रजनयन्ति वाधूश्री ४, ८२: २; †प्रजनयतु आपश्री ९, ६, ७; वौश्री ९, १६: ११××; हिश्री १५, २, १४; प्र...जनय, प्र (जनय) आपमं १, १४, ३; †प्रजनयावै<sup>६</sup> आश्री १, ७, ६; कौश्री १, ८, १८; शांश्री १, १३, ४; पाश्री; प्रजनयेत् अप ६३, ३, ५.  
†प्रजनयिष्येते<sup>६</sup> माश्री १, ५, २, ४; वाश्री १, ४, १, १९; †प्रजन-यिष्यतः<sup>६</sup> माश्री १, ५, २, ४; वाश्री १, ४, १, १९; प्रजनयिष्येथे

हिश्री ६, ५, १०<sup>१</sup>; प्रजन-यिष्यथः<sup>६</sup> आपश्री ५, ८, ८; वौश्री २, १५: १४; हिश्री ६, ५, १०.  
प्रजनयां/कृ, प्रजनयामकः पा ३, १, ४२<sup>१</sup>.  
प्र-जन<sup>१</sup>- नः वैश्री २०, १: ३; -नस्य पावा ४, १, ९२; -ने पा ३, १ १०४; ३, ७१; ६, १, ५५; -नेन निस् ८, २: २८.  
प्रजन-संघन्धा(न्ध-अ)पेक्षा-क्षा हिश्री ३, १, ५.  
प्र-जनन, ना<sup>६</sup>- †नम् शांश्री ४, १३, १; आपश्री ६, ११, ५; १८, ६, ३; २०, १८, ४; वौश्री; लाश्री ३, ५, ५<sup>१</sup>; -नस्य वाधूश्री ४, ३१: ६; ९७<sup>०</sup>: ७; ११६: ५; -नाम् कौस् ६९, २०; -†नाय वौश्री २, १३: ५; १८, १०: ६; १४; जैश्री; -ने वैश्री १, १०: ९; १०, १०: ६; हिश्री १४, ४, १०; वाध ८, ११; -नेन आपश्री २०, १८, ४; माश्री ५, २, २, १५.  
प्रजनन-कर्मन्- र्म या ११, ३१.  
प्रजनन-काम- मः आपश्री २२, ६, १; हिश्री १७, २, ४६; -माः कौस् १९, २.  
प्रजनन-निमित्त(त्)त्ता<sup>१</sup>- -त्ता वौध २, ९, २.  
प्रजनन-यज्ञ- ज्ञस्य या ३, ४.  
प्रजनना(न-अ)र्थ- र्थः भाश्री १, ११: ५.

†प्र-जनयत्- -यन् आपश्री १२, २२, ८<sup>३</sup>; वौश्री ७, १३: २०; २२; हिश्री ८; ७, १४<sup>२</sup>; -यन्तः शांश्री १६, २३, १३; -यन्तौ वाधूश्री ४, २७: १७.  
प्रजनयन्ती- न्तीः वाधूश्री ४, ९७: ११.  
†प्र-जनयित्वे आपश्री ५, १, ४; वौश्री २, ६: ३४; हिश्री ३, २, ३.  
प्र-जनयिष्यमाण- णः शांश्री १, १९, २<sup>१</sup>; -णाः आश्री १०, ५, १२.  
प्र-जनिष्यु- पा ३, २, १३६.  
प्र-जनिष्यमाण- णः कौश्री १, १२, २<sup>१</sup>.  
प्र(ज >)जा<sup>६</sup>- -जया आश्री १, ३, २८<sup>१</sup>; ६, १२, ४<sup>१</sup>; १०, ५, १२; शांश्री १, ४, ५××; २, ११, ५<sup>१</sup>; ९, ५, १<sup>१</sup>; काश्री; †आपश्री १<sup>०</sup>, १२, ११; १४; १७; ५, १४, ५<sup>१</sup>; ६, १९, ७<sup>०</sup>; ९, १४, १<sup>१</sup>; †वौश्री ३, ८: १४<sup>१</sup>; २१: १२<sup>१</sup>; ८, १७: ३<sup>१</sup>; १७, ८: २८<sup>१</sup>; १७, ३: २<sup>१</sup>; †माश्री १, १२, ६<sup>१</sup>; ३, १२, ७××<sup>१</sup>; ४, २१, ५<sup>१</sup>; †वाश्री १, २, २, १७<sup>१</sup>; ३, २, २५<sup>०</sup>; †वैश्री २, ८: ११<sup>०</sup>; ३, ७: ८<sup>१</sup>; ७, १३: ७<sup>१</sup>; १७, १५: ३<sup>१</sup>; †हिश्री १, ३, ३४<sup>१</sup>; ३, ४, २८<sup>१</sup>; ६, ४, २३<sup>१</sup>; ६, १९<sup>०</sup>; ८, १, ७६<sup>१</sup>; ९, ७, २१<sup>१</sup>; १३, २, ९<sup>१</sup>; १६, ५, १<sup>०</sup>; †जैश्री १५: ८<sup>१</sup>; २०: ३<sup>१</sup>; वैताश्री १३, २३<sup>१</sup>; आपमं १, ९, ४<sup>१</sup>;

a) परस्परं पाभे. । b) पाभे. वैप १, २१२२ p द्र. । c) पाभे. वैप १, २१२२ q द्र. । d) पाभे. वैप १, ६३३ g द्र. । e) परस्परं पाभे. । f) =प्र-जनन- । g) वैप १ द्र. । h) अभ्यात् संप्र इति पाठः ? यनि. च अभ्यात्तमम् इति च शोधः । i) विप. । वस. । j) परस्परं पाभे. । k) पाभे. वैप १, २१२४ d द्र. । l) पाभे. वैप १, २१२४ e द्र. । m) पाभे. वैप १, २१२४ j द्र. । n) पाभे. वैप १, २१२४ f द्र. । o) पाभे. वैप १, २१२४ g द्र. । p) पाभे. वैप १, १६८८ i द्र. । q) पाभे. वैप १ रुय्यामा १२, ७ टि. द्र. । r) पाभे. वैप १, २१२४ o द्र. ।

कौट १,९,१७<sup>क</sup>; आमिष्ट १,  
१, ३:२७<sup>क</sup>; जैट १, २२:४<sup>क</sup>;  
-जा आश्रौ ९, ५, १४; शांश्रौ  
१४, ७, १××; आपश्रौ; या ३,  
१; -जा: आश्रौ १०, ३, १२;  
११, ६, ८; शांश्रौ; ऋष्यश्रौ ४,  
१, १०<sup>क</sup>; १२, २२, ८<sup>क</sup>; ऋष्यश्रौ  
४, ६:३५<sup>क</sup>; ७, १३:२२<sup>क</sup>; ११,  
४:१९<sup>क</sup>; ऋष्यश्रौ ४, २, २<sup>क</sup>;  
७, १३, ४<sup>क</sup>; वाश्रौ १, ६, ५,  
१<sup>क</sup>; ऋष्यश्रौ १०, १३:११<sup>क</sup>; १५,  
२८:७<sup>क</sup>; ८<sup>क</sup>; ऋष्यश्रौ १, २, ५<sup>क</sup>;  
८, ७, १४<sup>क</sup>; कौट १, २, ३<sup>क</sup>;  
गो २, १८<sup>क</sup>; ऋष्य १०, ३४;  
१४, १६; -जानाम् आश्रौ ६,  
१४, १६<sup>क</sup>; शांश्रौ ४, १०, १<sup>क</sup>;  
आपश्रौ ५, १, ७××; २२, १७, १०;  
वौश्रौ; हिश्रौ १७, ६, ४४<sup>क</sup>; या  
१०, ४२; -ऋष्यमि: आश्रौ २,  
३, २७<sup>क</sup>; शांश्रौ; वैताश्रौ २५, १२<sup>क</sup>;  
कौट १२४, ४<sup>क</sup>; -ऋष्यमि: शांश्रौ  
३, २०, २; काश्रौ ७, ७, १७;  
आपश्रौ; आश्रौ १, ७, १९<sup>क</sup>; कौट  
१, ८, २८<sup>क</sup>; काश्रौ २५, ४२<sup>क</sup>;  
माश्रौ १, ११, १८<sup>क</sup>; वाश्रौ १४,  
२३<sup>क</sup>; जैट १, २१:२९<sup>क</sup>;  
-ऋष्यम् आश्रौ १, ११, १;  
८××; शांश्रौ: आपश्रौ १७, १३,  
२<sup>क</sup>; २१, १५, १९<sup>क</sup>; माश्रौ ६, २,

३, ८<sup>क</sup>; वैताश्रौ २५, ११<sup>क</sup>; आश्रौ  
१, ७, ६<sup>क</sup>; कौट १, ८, १८<sup>क</sup>;  
शांश्रौ १, ६, ६<sup>क</sup>; १३, ४<sup>क</sup>; पाश्रौ; या  
९, २२<sup>क</sup>; ११, ७; ३२; -ऋष्यमि:  
आश्रौ २, ५, १२<sup>क</sup>; शांश्रौ २, १५,  
५<sup>क</sup>; ९, २८, ३<sup>क</sup>××; आपमं;  
कौट १, १४, ६<sup>क</sup>; वौट १, १०,  
४<sup>क</sup>; या ८, ५; -जायाम् शांश्रौ  
१६, २३, ६; १४; काश्रौ; या  
४, १७; -ऋष्यमि शांश्रौ ७,  
५, १४; १३, १२, १३<sup>क</sup>; १७,  
१२, १; आपश्रौ; -जासु काश्रौ  
४, १५, १५; आपश्रौ ५, २, १<sup>क</sup>;  
वौश्रौ.  
प्रजा-काम, मा- -म: आश्रौ १,  
१०, ६<sup>क</sup>; ९, ७, २८××; काश्रौ;  
हिश्रौ १७, २, ४५<sup>क</sup>; -मम्  
वापश्रौ १४, १३, १०; २२, ४,  
२××; हिश्रौ: -मस्य शांश्रौ १,  
१५, ३; १४, २२, २५; काश्रौ;  
-मा आश्रौ १, ११, २; माश्रौ  
४, १, ३३<sup>क</sup>; -मा: आश्रौ १२,  
५, ६; आपश्रौ; -मानाम् शांश्रौ  
१, ७, ३; काश्रौ २४, २, १३; २२;  
३५; वौश्रौ १६, ४: २; माश्रौ  
४, १, ३; -माय आपमं २, ११,  
४<sup>क</sup>; -माया: कौट ३५, १७;  
-सौ काश्रौ ३०, ४.  
प्रजाकाम-पशुकाम- -मयो:

काश्रौ २२, ११, १२; -मस्य  
आपश्रौ ५, २८, १२; १०, ४,  
४<sup>क</sup>.  
प्रजा-क्षय- -ये अश्रां १७, २.  
प्रजाक्षय-कर- -नम् अप  
३०<sup>क</sup>, १, ७.  
प्रजा-गुति- -स्य आपध २, २६,  
४; हिश्रौ २, ५, १९९.  
ऋष्य- (हृ >) ऋष्य- -ऋष्य-  
आपमं १, १०, ३; ६; पाश्रौ १,  
११, ३; ४; वौट १, ६, १३;  
भाश्रौ १, १९: १४ जैट १, २२:  
१५.  
प्रजा-तन्तु- -न्तुम् आमिष्ट १,  
६, १: १<sup>क</sup>.  
प्रजा-दान- -नम् आपध २, २३,  
८; हिश्रौ २, ५, १६१.  
प्रजा(जा-आ)दि- -ऋष्यम् अप  
७, ३३.  
प्रजा-धर- -०र विध ९८, ६४.  
प्रजा-निश्रेयस- -सम् वौट १,  
७, ४६<sup>क</sup>.  
प्रजा-नि: [श्र] श्रियस- -सन्  
आपश्रौ ९, १<sup>क</sup>; आपध १, ९, १३;  
हिश्रौ १, ३, १३; -साय आपध  
२, १६, २; हिश्रौ २, ५, २<sup>क</sup>.  
प्रजा-पति- पाश्रौ ४, ४, ४८;  
-स्य आश्रौ २, ९, ९<sup>क</sup>; ऋष्यश्रौ  
७, १८, ५: १३, १२, ८; काश्रौ:

- a) पांमि. वैप १, २१२४ e द्र. । b) पांमि. वैप १, २१२४ f द्र. । c) पांमि. वैप १, २१२५ h द्र. ।  
d) पांमि. वैप १, २१२५ e द्र. । e) सपा. प्रजा: < > प्रजाम् इति पांमि. । f) पांमि. वैप १, २१२६ h द्र. ।  
g) ष्टाम् इति पाठ: ? यनि. शोध: (तु. आपश्रौ २२, १७, १०) । h) पांमि. वैप १, २१२४ g द्र. । i) पांमि.  
वैप १, २१२४ e द्र. । j) पांमि. पृ १५४९ ष द्र. । k) पांमि. वैप २, ३६. वृत्ताय तैत्रा ३, ७, ७, ११ टि. द्र. ।  
l) पांमि. वैप १, २१२६ d द्र. । m) सपा. प्रजां भूतिम् < > प्रजातिम् < > प्रजापतिम् इति पांमि. । n) पांमि.  
वैप २ यजम् तै ३, ५, १, १ टि. द्र. । o) पाठ: ? ष्जा: इति शोध: (तु. C., सपा. तै ३, ५, २, ३ तां १, १०, १ च) ।  
p) पांमि. वैप १, २१२८ e द्र. । q) पांमि. वैप १, २१२८ i द्र. । r) पांमि. वैप १, २१२८ k द्र. । s) सपा.  
आपश्रौ २२, ५, १८ स्वर्गकाम: इति पांमि. । t) उप. < > षि [क्षये] । u) उप. = नि:श्रेयस- । v) परस्परं  
पांमि. । w) आपध. पाठ: । x) ष्सा च इति पाठ: ? यनि. शोध: (तु. आपध.) ।

या १२,८; -तिः ऋआश्रौ १,  
११,७; २, २, ४××; शांश्रौ २,  
६, ७××; ९, ५, १××; काश्रौ;  
वौश्रौ १७, ३ : २××; माश्रौ  
१, ४, २, १, २××; हिश्रौ ९, ७,  
२, १××; जैश्रौ १५ : ९××; वैताश्रौ  
२७, १६<sup>०</sup>; पाश्रु १, ८, ८××;  
माश्रु १, १०, १३××; १४, १६××;  
कौसू १२४, ४<sup>३</sup>; अप १, ४, १<sup>१</sup>;  
२, १, ७<sup>६</sup>; ऋअ १, २, १०<sup>६</sup>;  
२<sup>३</sup>, ३, ३८; ५४; ९, ८४;  
१०१; शुअ<sup>३</sup> २, १; ३८१;  
३, २; अअ<sup>३</sup> २, ३०; ४, ३५;  
६, ११; निघ ३, १७<sup>१</sup>; या १०,  
४२<sup>०</sup>; वेज्यो ३२<sup>१</sup>; -तिना  
काश्रौ २०, ३, १०; आपश्रौ;  
आपमं २, ५, २२××; वौश्रु २,  
५, २६××; -तिम् आश्रौ २, ३,  
१९; ८, १३, २६××; १०, ९, ५××;  
शांश्रौ; हिश्रौ १६, ५, १४<sup>६</sup>;  
१८, ४, ६५<sup>६</sup>; वैताश्रौ ३, २०<sup>१</sup>;  
शंघ ११६ : ३६; अअ४, १५<sup>१</sup>;  
-तीन् शंघ ११६ : ३०; -फंते  
आश्रौ<sup>३</sup> २, १४, १२; ३, १०, २३;  
शांश्रौ १, ४, ५××; १६, ७, ३<sup>३</sup>;  
काश्रौ २, २, ११; १५, ६, ११<sup>३</sup>;  
आपश्रौ १, १०, ८<sup>३</sup>; २, ११,  
२<sup>३</sup>××; ९, २, ४<sup>३</sup>; १२, ४<sup>३</sup>; १३,  
६, ११<sup>३</sup>; १२, १२<sup>३</sup>; १८, १६,  
१४<sup>३</sup>; वौश्रौ १, २१ : २४<sup>३</sup>××;

२, १३ : ८<sup>३</sup>; ३, ११ : २७<sup>३</sup>;  
५, १५ : ३२<sup>३</sup>; १२, ११ :  
११<sup>३</sup>; माश्रौ; माश्रौ १, १, २,  
३८<sup>३</sup>; वाश्रौ १, २, ३, ३१<sup>३</sup>;  
वैश्रौ<sup>३</sup> १६, ८ : ७; २०, ५ :  
३; २५ : ६; हिश्रौ २, ६, २<sup>३</sup>;  
९, २, १७<sup>३</sup>; १३, ६, ३३<sup>३</sup>;  
१५, ७, २१<sup>३</sup>; वैताश्रौ<sup>३</sup> १, ३;  
२, १२; ७, १२; आपमं १, ११,  
४; २, २२, १९<sup>३</sup>; आश्रु<sup>३</sup> १,  
४, ४; १४, ३; २, ४, १४; कौश्रु<sup>३</sup>  
१, ८, २६; ११, ४; १४, ६;  
शांश्रु<sup>३</sup> १, १८, ४; २२, ७; आश्रिण<sup>३</sup>  
१, १, ४ : ५१; ५, ४ : १३; २,  
१, १ : ४; २ : ४; ५ : २४;  
२, ४ : ३; ५ : ३; ४, १ :  
५; २ : ८; ५ : १०; ५, १ :  
२९; ७, २ : २६; ९ : २९;  
३, २, २ : ९; ६ : १०; काश्रु २२,  
२<sup>३</sup>; ३४, ४<sup>३</sup>; ३६, १<sup>३</sup>;  
१, ४, ३३; ४, २, १; भाश्रु<sup>३</sup>  
१, ६ : १६; १४ : १५; २८ : ८;  
२, २ : १२; ६ : १३; ३२ : ८; ३,  
१९ : १४; वैश्रु<sup>३</sup> १, १७ : २;  
२, ९ : ८; ४, ३ : १४; ६ : ९;  
हिश्रु<sup>३</sup> १, ३, ६; ८, १६; ९, ७;  
१७, ६; १८, ६; १९, ८; २६,  
१४; २७, १; २८, १; २, १, ३;  
२, २; ४, १०; ५, २; ६, २; १५,  
१३; गोश्रु ४, ६, ९<sup>३</sup>; जैश्रु<sup>३</sup> १,

४ : १३, २० : ३१; कौसू ५,  
९<sup>३</sup>; अप४५, १, २४<sup>३</sup>; अशां १८,  
७<sup>३</sup>; शुअ<sup>३</sup> १, ६१५; ३, ४०;  
अअ ७, ८०<sup>३</sup>; या १०, ४३<sup>३</sup>;  
उसू ८, ३५<sup>३</sup>; -तेः ऋआश्रौ  
१, १३, ४; ३, ११, ११;  
शांश्रौ; आपश्रौ २१, १२, ३××;  
हिश्रौ १६, ४, ३५××; शुअ<sup>३</sup>  
१, १५५; १६३; १७२; २११;  
२३०; २, ४; ३६२; ३, ७७;  
चाअ १ : ६<sup>३</sup>; १६<sup>३</sup>; -फंतौ  
आपश्रौ ६, ९, १; ११, १, ६;  
वौश्रौ.

प्राजापत- पा ४, ४,  
४८.

प्राजापत्य, त्या<sup>३</sup> - त्यः

आश्रौ २, १४, ११; ३, ८, ६;  
शांश्रौ; विघ २४, १८<sup>१</sup>; ऋअ<sup>३</sup>  
२, ५, ३३; १०, १९; १२१;  
१३०; १६१; १७७; १८३;  
१८४; शुअ<sup>३</sup> १, १४; ६१८;  
३, ४९; साअ १, १७१<sup>३</sup>; -त्यम्  
आश्रौ ३, ४, १२; १०, ३, ६;  
शांश्रौ; वौश्रौ १३, ३६ : ११<sup>३</sup>;  
लुसू<sup>३</sup> १, २ : ८; ३ : ३; १०;  
१९; ४ : ६; ११ : ३०; २,  
३ : ६; ४ : ११; अप ५७, ४,  
१<sup>३</sup>; ७०<sup>३</sup>, १६, ५<sup>३</sup>; शंघ ५४<sup>३</sup>;  
१५२<sup>३</sup>; ३९५<sup>३</sup>; ४०१<sup>३</sup>; ४०६<sup>३</sup>;  
४०८<sup>३</sup>; ४५०<sup>३</sup>; ४६०<sup>३</sup>; विघ

a) पाभे. वैप १, २१२९ ८ द्र. । b) पाठः ? णिम् इति शोधः (तु. गोत्रा २, १, ७) । c) एकतरत्र  
पाठः ? ण्ये इति C. शोधः । d) पाभे. वैप २, ३ खं. वृहस्पतिः मंत्रा १, २, २१ टि. द्र. । e) सपा. ण्तिः  
<> ण्ते इति पाभे. । f) = नक्षत्र-देवता- । g) = देवता- । h) = ऋषि-विशेष- । i) यज्ञ-नामन्- ।  
j) सपा. हिश्रु १, १३, १९ ब्रह्मणा इति पाभे. । k) पाभे. पृ. १६५८ m द्र. । l) पाभे. वैप २, ३ खं. प्रजापतिम् गोत्रा  
२, १, ७ टि. द्र. । m) ण्तिः इति पाठः ? यनि. शोधः । n) पाभे. वैप १, २१३१. a द्र. । o) ण्ते इति पाठः ?  
यनि. शोधः (तु. पूर्व स्थलम्) । p) ण्ते इति C. । q) विप. (सूक्त-, स्थाली-नाक-; उडुम्बर- प्रश्रु.), व्यप. ।  
वैप १ द्र. । r) = विवाह-विशेष- । s) प्रजा इति पाठः ? यनि. शोधः । t) = साम-विशेष- । u) = नक्षत्र-  
(रोहिणी-) । v) = कर्म-विशेष- । w) = तीर्थ-विशेष- । x) = व्रत-विशेष- ।

२२, १६<sup>०</sup>; ३८, ७<sup>०</sup>; ५१, ४५<sup>०</sup>;  
 ५३, १<sup>०</sup>; ६२, १<sup>०</sup>; वैष २<sup>०</sup>,  
 १, २; ६, २; काच २७१ : ६<sup>०</sup>;  
 -त्वचा<sup>१</sup> आपश्रौ २, २, ४; २०, १;  
 १२, ८, ९<sup>०</sup>; १३, १२, १२; वौश्रौ;  
 वैश्रौ १५, ९ : ११; -त्वस्त्व शाश्रौ  
 ९, २३, ९; १६, ७, ४; काश्रौ;  
 आपश्रौ १६, ७, ११; वैश्रौ १८,  
 ५; १४<sup>१</sup>; वृद्धे ८, ८<sup>०</sup>; नाश २:  
 १४<sup>१</sup>; ३० : ६<sup>०</sup>; -त्या शाश्रौ १४,  
 ३, १९; आपश्रौ ६, ३१, ११<sup>१</sup>;  
 १२, १६, १०; वौश्रौ; अशां १६,  
 १<sup>१</sup>; ऋअ २, १०, १०<sup>०</sup>; वृद्धे ७,  
 ४९<sup>१</sup>; ऋआ १७, ९; नाशि १, ४;  
 याशि १, ५०; पि २, ५;  
 उनिस् ३ : १९; -त्याः आश्रौ  
 ३, ८, १; १०, ९, ५; शाश्रौ;  
 या ७, ४; -त्याः आपश्रौ १६,  
 १३, ५; वौश्रौ २५, १८ : १०;  
 वैश्रौ; गौष ४, ३२<sup>०</sup>; -त्यान्  
 काश्रौ १४, २, १३; आपश्रौ १८,  
 २, ३; १३; २०, २२, ४; वौश्रौ;  
 वाष १४, १६; २४; ३०;  
 -त्यानाम् काश्रौ १४, २, २०;  
 २०, ८, २; वौश्रौ; -त्यानि  
 आपश्रौ २, १०, ४<sup>१</sup>; १८, १,  
 १५; वौश्रौ; निस् १, १२ : ६;  
 आशि १, २, १ : ९<sup>१</sup>; वौश्रु ३,  
 १, २१<sup>१</sup>; शुअ १, ५७२; उनिस्  
 ८ : २४; -त्याभिः शाश्रौ १३,  
 ५, ७; १२, ९; आपश्रौ; -त्या-  
 म्यान् अप ४६, १०, २६; अश्र

१२, २३; -त्यान् आपश्रौ १७,  
 ९, ३<sup>०</sup>; १२, २१, १; वौश्रौ २,  
 १३ : ७; १०, ३६ : ८<sup>०</sup>xx;  
 १३, २३ : १<sup>१</sup>; माश्रौ; वैश्रौ  
 १२, ६ : ७<sup>०</sup>; हिश्रौ २२, ४, १<sup>१</sup>;  
 लप ७०<sup>२</sup>, १३, २<sup>१</sup>; अशां १७,  
 २<sup>१</sup>; विष २६, १<sup>१</sup>; -त्याच  
 आपश्रौ २१, १०, १; हिश्रौ १६,  
 ४, १४; -त्यायाः पि २, ११;  
 -त्यायान्<sup>१</sup> अशां १८, ३; १२,  
 २; -त्यायै वौश्रौ २०, २१ : ६;  
 ८; -त्यासु वौश्रौ १६, ३१ :  
 १७; १९; -त्ये आश्रौ ३, २, ८;  
 ४, १२; शाश्रौ; वैश्रु २, १० :  
 १०<sup>०</sup>; अप ३३, ४, १<sup>१</sup>; वाष  
 १२, ४७<sup>१</sup>; १७, ६१<sup>१</sup>; गौष ४,  
 ७<sup>१</sup>; -त्येन शाश्रौ १३, २०, ८;  
 आपश्रौ ६, १७, १०<sup>१</sup>; १६, ८,  
 २<sup>१</sup>; २२, २२, १५<sup>१</sup>; माश्रौ;  
 आशि ३, १२, १ : ५<sup>०</sup>; वैश्रु ३, १ :  
 १४<sup>१</sup>; वाष १८, १६<sup>१</sup>; २७, १७<sup>१</sup>;  
 शंष २६<sup>१</sup>; वौष ४, ५, ३०<sup>०</sup>; विष  
 २४, ३६<sup>१</sup>; -त्याभ्यः आश्रु २, ३,  
 ५; नाश २, ७, १; -त्येषु वैश्रौ  
 १७, १६ : ५; नीस् १०, ४, ६;  
 -त्यैः नीस् ११, ३, ४५; -त्यौ  
 काश्रौ २०, ८, १५; वौश्रौ १८,  
 ४५ : ४१.  
 प्राजापती- -त्या  
 भाग ३, २ : १२; -त्याः निस्  
 ४, ९ : ५.  
 प्राजापत्य-द्वय- -येन

शंष ४४२<sup>२</sup>.  
 प्राजापत्य-अश्रु-  
 -नाम् वैश्रौ १८, ४ : १४.  
 प्राजापत्य-नाश्रु-  
 -न् आशि २, ३, १ :  
 ११.  
 प्राजापत्य-त्व-  
 -त्वचा काश्रौ २५, १४, १८;  
 नाश्रौ २, २, ७.  
 प्राजापत्य-दया-  
 -यान् काश्रौ २०, ७, ९.  
 प्राजापत्य-वर्जन् वाश्रौ  
 २, १, २, १२.  
 प्राजापत्य-व्रत-  
 -वन्- -वन् वैश्रु २, ९ : १०;  
 १२ : १६.  
 प्राजापत्य-व्रत-दन्-  
 ना(न-आ)दि- -दि वैश्रु २,  
 ३, २.  
 प्राजापत्य-सूच-  
 -न् वैश्रु २, ३, २.  
 प्राजापत्या-नापती-  
 -व्यः अश्रु १२, २३; -त्यौ अश्रु  
 १२, २२.  
 प्राजापत्या-जगती-  
 -त्यौ अश्रु १५, ४.  
 प्राजापत्या-विश्रु-  
 -द्वयः अश्रु १२, १८; -द्वयौ  
 अश्रु १५, १२.  
 प्राजापत्या(त्व-आ)  
 दि-> -त्यादि-नूलहोने- -नि-  
 वैश्रु १, १८ : १४.

a) एवमन् इति जीमं. । b) = व्रत-विशेष- । c) = तीर्थ-विशेष- । d) = ऋच्- । < प्रजापते ऋ  
 १०, १२१, १० । e) वज्रा (वृ. माष्यम्) इति पाठः? यनि. शोषः (वृ. सप्र. वैश्रौ १५, ९; ११; C. वं) । f) वन्  
 इति पाठः? यनि. शोषः (वृ. आपश्रौ.) । g) = प्रजापति-पुत्र- । h) = ऋषि-विशेष- । i) = इति-विशेष- ।  
 j) = महाशान्ति-विशेष- । k) = प्रजापति-दुहितृ- (दक्षिणा-) । l) = प्रजापति-दुहितृ- (विश्रुणा-) । m) = विवाह-  
 विशेष- । n) = काण्ड-विशेष- । o) = इष्टकान्-विशेष- । p) = नमन- (रोहिणी-) । q) = मुहूर्त-विशेष- ।  
 r) = वृत्त- । s) = पठह-विशेष- । t) विप. । वस. ।

प्राजापत्यादि-वेद-  
 व्रत- -तानि वैग् ६, ११ : ६.  
 ?प्राजापत्याद्यपात्र-  
 -त्रम् वाश्रौ ३, ४, २, १४.  
 प्राजापत्या(त्या-अ)  
 लुप्टुम्- -प्टुमः अत्र ११, ३;  
 १२, ५(३; ५) × ×; -प्टुमौ अत्र  
 १३, ४(२-४; ६); १५, १२; १३.  
 प्राजापत्या-वृहती-  
 -त्यौ अत्र ९, ३; १५, ११.  
 प्राजापत्या(त्य-आ)  
 श्वमेधिक- -के वृदे २, १५३.  
 प्राजापत्यो ( त्या-उ )  
 णिह- -णिहः अत्र १५, १६;  
 -णिहौ अत्र १२, ५ (६); १५,  
 १७.  
 प्राजापति-काम- -मः निसू  
 ६, ६ : २१; ८ : ३५.  
 प्राजापतिकाम-यज्ञ- -ज्ञः  
 निसू २, ३ : १७.  
 प्राजापतिकाम-सत्र-  
 -त्रम् निसू १०, ४ : १; १३ : ७.  
 प्राजापतिकामसत्र-  
 त्व- -त्वात् निसू १०, १३; १२.  
 प्राजापति-गीत- -तौ वौघ  
 २, ४, १५.  
 प्राजापति-गृहपति- -तयः  
 आश्रौ ८, १३, ७; १०<sup>क</sup>.  
 †प्राजापति-गृहीत, ता-  
 -त्त्या<sup>म</sup> वौश्रौ १०, ३५ : ६;  
 १४, २२ : ११; -त्तेन<sup>म</sup> वाश्रौ  
 ३, २, १, ३२.  
 प्राजापति-च्छन्दस- -सानि  
 वाधूश्रौ ४, १००<sup>३</sup> : १.

प्राजापति-तस्(ः) वृदे ७, ५०.  
 प्राजापति-त्व- -त्वेन शुभ्र ३,  
 ८१.  
 प्राजापति-देव(त >) ता<sup>प</sup>-  
 -ताः वृदे ८, १०८.  
 १प्राजापति-परिवाद- -दः  
 आपश्रौ २१, १२, १.  
 २प्राजापति-परिवाद<sup>प</sup>- -दान्  
 आपश्रौ २१, १२, २<sup>०</sup>; -दानाम्  
 हिश्रौ १६, ४, ३५<sup>०</sup>.  
 प्राजापति-पीत- -तम् वाश्रौ  
 ३, २, २, ३१.  
 प्राजापति-पुरोग<sup>प</sup>- -गान् वैग्  
 १, १३ : १.  
 प्राजापति-प्रवाद- -दः निसू  
 ६, ३ : ५.  
 प्राजापति-मुख- -खात् चात्र  
 ४२ : १९.  
 प्राजापति-युक्त- -क्तः वौश्रौ  
 ३, २३ : ७<sup>क</sup>.  
 प्राजापति-राजन्<sup>प</sup>- -जानः  
 शाश्रौ ४, २१, १२<sup>क</sup>.  
 प्राजापति-रूप- -पेण शुभ्र  
 १, ४९९.  
 प्राजापति-संस्ताव- -वेपु निसू  
 ४, ६ : ७<sup>प</sup>; -वौ निसू ७, १२ :  
 ४<sup>०</sup>.  
 †प्राजापति-सु( घ >) ष्टा-  
 -ष्टानाम् आपश्रौ ५, १, ७; वैश्रौ  
 १, ७ : ३.  
 प्राजापति-हृदय<sup>१</sup>- -यम्<sup>६</sup>  
 काश्रौ १८, ३, २; लाश्रौ १, ५,  
 १६.  
 प्राजापतिहृदय-स्थान-

-ने लाश्रौ १, ५, १८<sup>म</sup>.  
 प्राजापती(ति-ई)प्सा- -प्सया  
 निसू ६, १० : ३६; -प्साम्  
 निसू ६, १० : ३२; १०, ३ : १;  
 १३ : १६.  
 प्राजापतेर-अयन- -नम्  
 वौश्रौ १६, १६:४-६; २६, १७:९.  
 प्राजापतेर्(अयन)- -नम्  
 काश्रौ २४, ५, १९; लाश्रौ १०,  
 १३, १३.  
 प्राजापतेर्-गृह<sup>०</sup>- -द्वेन जैश्रौ  
 ४ : ७.  
 प्राजापतेर्-द्वादशसंवत्सर<sup>१</sup>-  
 -रम् आश्रौ १२, ५, १५; शाश्रौ  
 १३, २८, ५; काश्रौ २४, ५, १९;  
 हिश्रौ १८, ४, १२<sup>१</sup>; -रेण  
 आपश्रौ २३, ११, ८<sup>१</sup>.  
 प्राजापतेर्-हृदय- -यम् द्राश्रौ  
 २, १, २०<sup>६</sup>; २८; गौपि १, १, ९;  
 -येन वौश्रौ १०, ४९ : १५;  
 माश्रौ ६, २, ४, ९; वाश्रौ २,  
 २, ३, १३; वैश्रौ १९, ६ : ६१.  
 प्राजापतेर्हृदय-स्थान-  
 -ने द्राश्रौ २, १, २४<sup>५</sup>.  
 प्राजापतेस्-तनु<sup>क</sup>- -नुः  
 आश्रौ ८, १३, १२<sup>१</sup>; -न्वम्  
 शाश्रौ १०, १९, २<sup>१२</sup>.  
 प्राजापतेः-सहस्रसंवत्सर-  
 -रम् शाश्रौ १३, २९; ३२; निसू  
 १०, १३ : १५; -रयोः आपश्रौ  
 १९, १५, ७; -रेण आपश्रौ २३,  
 १४, १२; हिश्रौ १८, ४, ६६.  
 (प्राजापतेः)सहस्रसंवत्सर-  
 -रम् शाश्रौ १३, २९, ३२.

a) परस्परं पाभे. । b) विप. । वस. । c) परस्परं पाभे. । d) प्राजाति<sup>०</sup> इति संस्कर्तुः टि. । e) प्राजाति<sup>०</sup>  
 इति पाठः ? यनि. शोधः ( तु. संस्कर्तुः टि. ) । f) = साम-विशेष- । g) सपा. °तिह् <> °तेह् <>  
 °तेः साम इति पाभे. । h) सपा. °तिह् <> °तेह् इति पाभे. । i) पृ १३१८ २द्वादशसंवत्सर- इति नेष्टम् ।  
 j) सपा. °रम् <> °रेण इति पाभे. । k) = मन्त्र-विशेष- ( तु. भाष्यम् ) । l) पृ ११५६ सस्य. तनुः इति नेष्टम् ।

प्रजापतेः-सामन्- <sup>म</sup>  
 आपश्रौ १७, १२, ११; हिश्रौ  
 १२, ३, १३.

प्रजा-परिपालन- नन् विष  
 ३,२.

प्रजा-पशु-कान- > <sup>म</sup>वैश्य-  
 रथहृत्- न्नाम् काश्रौ ४, ७, ७.

प्रजा-पश्व(शु-अ)क-काम-  
 न्त्य अशां १७, २.

प्रजा-पश्व(शु-अ)क-यशस्-  
 काम- न्त्य काश्रौ ४, ४, १.

प्रजा-पालन- नन् वाच २,  
 १७; लुघ ७.

प्रजापालन-दुष्टनिग्रह-दुष्ट-  
 दानि वैध १, १, ७.

प्रजा-भाग्यो(ग-उ)हृव<sup>b</sup>- वन्  
 अप ५२, १४, ४.

प्रजाभाङ्गिरतः<sup>c</sup> कौत् २२, ९.  
 प्रजा(जा-अ)निराम<sup>d</sup>- नः  
 शंष २४४.

प्रजा-मेधा- धयोः पा ५, ४,  
 १२२.

प्रजा(जा-अ)र्थ-> <sup>०</sup>धिन्-  
 -र्थिनाम् वृदे ३, ३२; -र्थी अप  
 ७०<sup>e</sup>, १३, २.

प्रजाधि-होन- नन् आमिष्ट  
 २, ५, ६; १.

प्रजा-वत्- नैव शश्रौ २, २२,  
 ४; आपश्रौ ६, २३, १; वौष्ट ४,  
 ३, ४; -वतः वृदे ८, ८०; -वता  
 या २१, २४<sup>f</sup>; -नैवतः शश्रौ  
 १५, २७, १; आपश्रौः -वन्तम्

आमिष्ट २, १, ५; १<sup>g</sup>; -वान्  
 काश्रौ २३, ३, १<sup>g</sup>; आश्रौ; ऋअ  
 २, १०, १८<sup>g</sup>.

प्रजावती-> <sup>०</sup>प्राजावत-  
 पा.)पाग ४, ४, ४८; -०ति  
 नैवत् २४, १३; ३२, १५५;  
 -नैती आपश्रौ ३, १०, ९; ४,  
 १३, ३; माश्रौ; कौत् ५, २१<sup>h</sup>;  
 -नैतीः आपश्रौ १, ११, १०<sup>h</sup>;  
 वौश्रौ १, १; १२; ३; १३<sup>h</sup>;  
 माश्रौ १, १२, ३<sup>h</sup>; हिश्रौ १,  
 ३, १९<sup>h</sup>; कौत्; या ५, २;  
 -नैतीन् आपनं १, ७, ९; वौष्ट  
 १, ५, ५; ४, २, १२.

प्रजावत्-जीवपुत्र<sup>b</sup>-  
 नान्यान् वाष्ट १, १३, ६; -त्रौ  
 वृदे ५, ९२.

प्रजा-वृद्धि- द्विः आपष २,  
 ७, ४; हिष २, २, २५.

प्रजा-व्यूह-पशु-व्यूह- द्वत्य  
 आपश्रौ ५, २८, १२.

प्रजा-संस्कार- राः वौष्ट २, ६,  
 १८.

प्रजा-सन्नि<sup>c</sup>- नि शश्रौ ४,  
 १३, १; आपश्रौ ६, ११, ५;  
 शश्रौ; -निः कैताश्रौ १९, १६.

प्रजा-संतान- नन् वौष २, ९,  
 १०.

प्रजासहस्रकर्तृ- नैन्त्यः  
 आमिष्ट १, ६, १; १५; वैष्ट २,  
 २: ८.

प्रजा-सुह- न्वे विष ३, ९८.

प्रजा-स्थान- नन् निष्ट ४, ६: ७.  
 प्रजा-स्थापन<sup>c</sup>- नन् अप १,  
 ४३, १०.

प्रजा-हित- तन् अप ५२, ११,  
 २; -तेषु वौश्रौ १८, २०: ८.

प्रजे(जा-ई)श- शाय वैष्ट २,  
 १: ९<sup>i</sup>.

प्रजे(जा-उ)वत्सा(ति-आ)  
 लुष्टवै<sup>d</sup>- ल्येण हिष्ट २, १७, ७.

प्र-जात,ता- नैतन् अप ११, १, ६;  
 २३, १, ७; अशां १२, १; अप  
 १९, २३; -ता वाचश्रौ ४, ३६;  
 ३; वाच १७, ७८<sup>e</sup>; वौष २, १,  
 ३८; -नैताः आपश्रौ १, २४, ५;  
 वौश्रौ १, ९: ९; माश्रौ; -०ताः  
 नाश्रौ २, ३, ३, ७<sup>f</sup>; -ताम् वौश्रौ  
 १७, २८: १७; हिश्रौ १२, ८, ५;  
 आपश्रु १२, ६; -तादान् अप  
 ६८, २, ४१; -तायाः काश्रौ २५,  
 ११, १८; -तायान् शश्रौ ३, ४,  
 १४; -ते काश्रौ २०, ३, २०;  
 आपश्रौ; -तौ वाचश्रौ ४, १९: ४३

प्र-जाति- विः चाल ६: २<sup>g</sup>;  
 -तिभिः वैश्रौ ८, ५: १६<sup>g</sup>;  
 -तिन् आपश्रौ १०, २, ११<sup>g</sup>;  
 २३, १४, ११<sup>g</sup>; नाश्रौ १, ४, २,  
 ६; आपषः -तीः वौश्रौ ४, ५;  
 १०<sup>g</sup>; -तेः लुष्ट ३, १४: १५;  
 -नैत्यै शश्रौ १६, २२, २६;  
 आपश्रौ ५, ६, १; वौश्रौ.

प्रजाति-कान- नः काश्रौ २,  
 ७, २९; शश्रौ ४, १३, १५<sup>h</sup>;

a) पामे. पृ १६६१ f द्र. 1

b) विप. 1 पत्त. > वच. 1

c) प्नाः लं > संदिन्यायेन

वनि. इति संस्कृतेः टि. 1

d) विप. 1 उच. 1

e) =श्यापि-विशेष-1

f) वृ. वैष १, २१३३ g 1

g) पामे. वैष २, ३६. प्रजावतीः कैता ३, ७, ४, १४ टि. द्र. 1

h) वच. 1

i) वैष १ द्र. 1

j) उप. वरणे वृद.

k) जनन-कृत- इति भाष्यम्, old. व 1 प्रजे इति Bühr

(ZDMG ५२, ८७) शेषः? 1

l) पामे. वैष १, ९९८ p द्र. 1

m) =नन्-विशेष-1

n) पामे.

पृ १६५८ m द्र. 1

वौश्रौः-मस्य आश्रौ १०, १, २;  
काश्रौ २२, १०, १३; २२, १, १४;  
-माः आश्रौ ११, ३, ६; शाश्रौ  
१४, ६०, १; -मानाम् शाश्रौ  
१३, २८, ४; काश्रौ २४, ३, २४.

प्रजातिकाम-यज्ञ- -ज्ञः

निसू ७, ७ : २३; ८, ३ : १; -ज्ञे  
निसू ७, ७ : २५.

प्रजातिकामयज्ञ-त्व-

-त्वात् निसू ७, ७:२७; ८, ३ : २.

†प्र-जाव(र>)री- -रीः<sup>१</sup> माश्रौ १,  
१, ३, ७; माश्रु १, १२, ३.

प्र-जनन- प्रमृ. प्र/जन् द्र.

प्र/जम् > प्र-जमित-><sup>०</sup>ता(त-अ)  
द्वि<sup>१</sup>- -अयः या ७, २४.

प्र/जम्भ्, प्रजम्भयेत् आपशु १९, ९.

प्र-जा- प्रमृ. प्र/जन् द्र.

प्र-जागर- प्र/गृ (अवबोधने) द्र.

प्र-जाति- प्रमृ. प्र/जन् द्र.

प्रजानक<sup>०</sup>- -कः काश्रु २०, २.

प्र/जि, प्र(जय) अश्रु ६, १२६<sup>१</sup>†.

प्राजैपम् शाश्रौ १८, २१, ८†.

प्र-जय- -यम् शाश्रौ १८, २१, ८†.

प्र/जि, जिन्व्, प्र-जिनोपि<sup>०</sup> आपमं  
२, १८, ९; या ११, ३७†.

प्रजिन्वसि या ११, ३७;

प्रजिन्वन् आश्रौ ४, १३, ७†;

प्र(जिन्वन्) ऋश्रु २, १, ७१†.

प्र-जिगांसत्- प्र/गम् द्र.

‡प्रजिघाति सु २९, २.

प्र/जीव, प्रजीवतात् भाश्रौ १, १०,  
१०†.

प्र-जीवसे हिपि १८ : ५†.

प्र/जु, प्रजवेते, †प्र-जवेते या ९,

३९; †प्र(जवेते) ऋश्रु २, ३,  
३३; वृदे ४, १०५.

प्रजावयति या ९, १७.

प्र-जव<sup>०</sup>- -वः या ११, २०†; -वेषु  
या १, ९; १३, १३.

प्र-जविन्- पा ३, २, १५६.

प्र/जृम्भ्, प्रजृम्भयेत् हिश्रु ६, २९.

प्र/ज्ञा<sup>१</sup>, प्र(जानाति)अश्रु १५, १२†;

प्रजानन्ति वौश्रौ १४, ५ : ३१;

वाधूश्रौ ४, ६४<sup>०</sup>:७; ९; प्रजानीम

जैश्रु २, १ : २४; प्रजानीयात्

वौश्रौ १६, २७ : १७; प्रजानीयुः

आपथ २, १५, २१; हिश्रु २, ३, ५५

प्रज्ञायते आमिगृ ३, ९, २ : १०;

आपथ ८, १; वौषि १, १० :

१०××; प्रज्ञायन्ते वाधूश्रौ ४,

४५ : ३; प्रज्ञायेत् आपश्रौ ९,

११, २२; हिपि २३ : १८.

प्रज्ञापयति या ११, २७.

प्रजिज्ञासीत् वौश्रौ ३४, ६ : ५.

†प्र-जानत्- -नन् आश्रौ ३, १०, ८;

१२, २२; शाश्रौ; आपश्रौ ६, २६,

७<sup>१</sup>××; ९, २, ६<sup>१</sup>; भाश्रौ ९, ३,

८<sup>१</sup>; हिश्रौ १५, १, ४५<sup>१</sup>; या ७,

२७; ८, २०; ९, १५; -नन्तः

आपश्रौ ७, १२, १०; १५, ४; १६,

२९, १; वौश्रौ.

†प्रजानती- -ती आपश्रौ १६,

२९, १; वौश्रौ १६, २७ : १८;

वैश्रौ; -तीः आपश्रौ ४, ४, ४;

भाश्रौ ४, ५, ५; वाश्रौ.

प्र-ज्ञ- पाग ५, ४, ३८; -ज्ञाः

कौशि ५९; अप ५५, ५, ३.

‡प्राज्ञ- पा ५, ४, ३८; -ज्ञः

काश्रु ४६ : १०; आमिगृ २,  
५, १ : १२; जैश्रु २, ९ : ६; अप  
१२, १, ८; शंघ १९१; २३५;  
मैश्रु १; च्यू ४ : २०; या १२,  
३७<sup>१</sup>; -ज्ञम् अप ७०, १, १;  
-ज्ञाः अप ३०<sup>२</sup>, २, ९; कौशि  
३; नाशि १, ४, १२.

प्राज्ञ-ता- -ताम् माशि १६,  
१०.

प्राज्ञ-सेवन- -नात् माशि  
१६, १४.

प्र-ज्ञा- पाग ५, २; ९७; १००;

-ज्ञया आमिगृ १, १, ४ : ३†;

हिगृ १, ७, २†; जैश्रु १, १२ :

४०†; या २, २५; ६, १३××;

-ज्ञा आश्रु ३, ९, १†; भाश्रु १,

११ : १†; माश्रु; या ५, १४;

१०, ४१; -ज्ञान् कौश्रु २, ५, १;

कप्र १, १०, ४; शंघ; या २,

२८; ७, २७; -ज्ञायाः निघ

३, ९; -ज्ञायाम् भाश्रु १, ११ :

३<sup>१</sup>†; माश्रु १, ७, ७; वाश्रु १०,

६; -ज्ञायै आश्रु ३, ५, ४; जैश्रु

२, ८ : ७; वौष ३, ९, ५.

‡प्राज्ञ- पा ५, २, १०१.

प्रज्ञा-नामन्- -म या १०, ३४;

-मानि या ३, १३.

प्रज्ञा-न्त्- पा ५, २, ९७.

प्रज्ञा-यत्- पा ५, २, १००;

-वान् वैश्रौ १२, १ : १.

प्रज्ञावत्-त्व- -त्वम् या १०,  
३४.

प्रज्ञि- पा ५, २, १००.

प्र-ज्ञात, ता- -तः शाश्रौ १८, २४

a) पामे. पृ १६६२ g द्र.। b) विप.। वस.। c) = देवता-विशेष-। व्यु. ?। d) पामे. वैप १,  
६३१ k द्र.। e) वैप १, २१३४ b द्र.। f) †जीवि इति पाठः ? यनि. शोधः। g) वैप १, २१३४ f द्र.।  
h) पा ३, २, ६ परामृष्टः द्र.। i) पामे. वैप १, २१३४ m द्र.। j) = (सुष्ठुस्थान-) आत्मन्- (तु. मां ११)।  
k) प्रा० इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. माश्रु.)।

१६; वौश्रौ ३, १२ : १; १२××;  
 -तम् आपश्रौ १, ६, ८; १४,  
 ६××; वौश्रौ; -तया काश्रौ ६,  
 ६, ८; -ता शाश्रौ १८, २४, १७;  
 १८; काश्रौ; -ता: काश्रौ २२,  
 ११, २२; वौश्रौ ३, १ : ६; १०,  
 १२ : ९; ११, १ : १२; -तान्  
 आपश्रौ ११, ६, ३; १२, ८, ४;  
 २०, १२, १०; भाश्रौ; -तानि  
 वौश्रौ २, ९ : ३२; भाश्रौ; -ताम्  
 वौश्रौ १२, १४ : ७; हिश्रौ ५,  
 १, १६; आश्रिगृ; -ते आपश्रौ  
 १, ११, १०; वौश्रौ; -तौ वौश्रौ  
 २, ९ : ३३; हिश्रौ.  
 प्रज्ञात-तम- -मम् या २, १९.  
 प्रज्ञात-दक्षि(णा>)ण<sup>३</sup>- -णः  
 आश्रौ १२, १५, १०.  
 प्रज्ञात-गृष्ट<sup>३</sup>- -ष्ठः क्षुस् २,  
 १० : १३.  
 प्रज्ञात-स्तोम<sup>३</sup>- -मम् वौश्रौ  
 २६, १६ : १७.  
 प्रज्ञाता(त-अ)ग्निष्ठा(ष्ट-अ)  
 श्रि<sup>३</sup>- -श्रिः आपश्रौ ७, ३, २.  
 प्रज्ञाता(त-अ)प्र,त्रा<sup>३</sup>- -त्रम्  
 शाश्रौ १७, १, १३; -त्रा: द्राश्रौ  
 ५, २, ३; लाश्रौ २, ६, १; निस्  
 १, ११ : ६.  
 प्रज्ञाते(त-इ)ष्टव(ष्टि-अ)ति-  
 पत्ति- -तौ काश्रौ २५, ४, २१.  
 ?प्रज्ञातो(त-उ)त्पन्न- -न्नः हिध  
 २, ५, ४९<sup>३</sup>.  
 प्र-ज्ञाति- -त्यै हिश्रौ ६, १, ६.  
 प्र-ज्ञातृ- -ता क्षुस् ३, १४ : १२;  
 या १०, २७.  
 प्र-ज्ञान- -नम् वौश्रौ १, ४, ३१;  
 भाश्रौ १, १७ : १२१; अप १,

४६, १; या ४, १०; १२, ७;  
 कौशि १०; -नानि या ८, २०;  
 ९, १५; ३३××; -नाय अत्र ११,  
 ३१.  
 प्रज्ञान-वत् या ५, १५.  
 प्रज्ञान-वत्- -वन्तः या ४, १०.  
 ?प्रज्ञानाम्<sup>३</sup> अत्र १३, २१.  
 प्र-ज्ञायमान- -ने गोगृ ४, ४, २५.  
 प्र-ज्ञु- पा ५, ४, १२९.  
 प्र-ज्य<sup>३</sup>- -ज्यम् वौश्रौ २४, १२ : १;  
 २५, ४ : १.  
 प्र-ज्योति<sup>३</sup>- -तिषु वौश्रौ १८, ४० :  
 २०.  
 प्र $\sqrt$ ज्वल्, प्रज्वलति अप २१, ७, ४;  
 प्रज्वलन्ति अप ७०<sup>३</sup>, ८, ३; ७१,  
 १४, ५; १५, ३; ७२, ४, ४;  
 प्रज्वलेत् अप ७०<sup>३</sup>, १९, ७.  
 प्रज्वलयन्ति आपश्रौ १०, २९,  
 ८; भाश्रौ १०, २०, ५; वैश्रौ  
 १२, २१ : ३; हिश्रौ ७, ३, २०;  
 प्रज्वालयत आश्रौ ४, ४ : १;  
 प्रज्वालेत् काश्रौ ४५, ४; अप  
 १८, ३, ८; प्रज्वलयेयुः लाश्रौ ९,  
 ७, १५.  
 प्र-ज्वलत्- -लन् अप २१, ७, २.  
 प्रज्वलन्ती- -न्ती अप ६९, १, ४.  
 प्र-ज्वलन- -ने अप ७१, २, १.  
 प्र-ज्वलयत्- -यन्तः भाश्रौ २, १,  
 २१६.  
 प्र-ज्वलयित्वा हिश्रौ ९, ४, २७;  
 आश्रिगृ १, ६, ३ : ५०××; हिश्रौ.  
 प्र-ज्वलित- -तः भाश्रौ २, ५ : ४;  
 -तम् आश्रिगृ २, ६, १ : ३; वौशि  
 १, ८ : ३; कैश्रौ १, २० : ७; -ते  
 आपश्रौ १५, ८, १११; वौश्रौ ९,  
 ७ : २४; भाश्रौ; -तैः अप ४,

५, ६.  
 प्रज्वलिता(त-अ)श्रि<sup>३</sup>- -श्रयः या  
 ७, २४.  
 प्र-ज्वल्य आश्रौ २, २, १३; ५, १.  
 प्र-ज्वालय वौश्रौ २७, ७ : ३; भाश्रौ.  
 प्र-ज्वालयमान-> <sup>३</sup>न-वपुस्-  
 -पुः अप २४, ६, ४.  
 ?प्रज्जि सुध ८.  
 प्र $\sqrt$ ण (<न)ष्ट, प्र<sup>३</sup>नक्षन्त  
 आश्रौ ८, ११, १; प्र(नक्षन्त)  
 शाश्रौ १०, १०, ४; ऋश्र २, ७,  
 ४२.  
 प्र $\sqrt$ ण (<न)म्, प्रणामानि सु १, २;  
 प्रणमेत् वैश्रौ १, १ : ११; वैश्र ३,  
 १३ : ११××.  
 प्रणामयेत् आश्रौ ५, ६, १; ११.  
 प्र-णत- -तः आश्रिगृ २, ६, १ : ४;  
 वाध ३, ३०; शंघ ३७; ९५;  
 १०३; वौश्र १, ५, १५; -ताय  
 अप १९<sup>३</sup>, ५, ८.  
 प्र-णति- -तौ विध २३, ६१.  
 प्र-णम्य वैश्रौ २, १० : १७; आश्रिगृ.  
 प्र-णाम- -मः वैश्र ३, २२ : ६;  
 -मम् वौश्र ३, १२, १४; वैश्र;  
 प्रणाम-वत्- -वान् सु ३१, ६.  
 प्र-णय- प्रश्रु. प्र $\sqrt$ णी द्र.  
 प्र-णय- प्रश्रु. प्र $\sqrt$ णु द्र.  
 प्र $\sqrt$ णवत्- -वन्तम् वैश्र ३, १७ :  
 १२; ४, १४ : ८.  
 प्र $\sqrt$ ण (<न)शु (व्याप्तौ), प्र $\sqrt$ णम्  
 आपश्रौ ६, १७, १२; हिश्रौ ६, ६,  
 १६; प्र<sup>३</sup>वान्वाट्या ११, २५१.  
 प्र $\sqrt$ ण (<न)शु (अदर्शने), प्रणश्यति  
 विध ५७, ७; प्रणश्यन्ति अप  
 ६८, २, ५२; प्र<sup>३</sup>नश्यसि या  
 ९, ३०१; प्रणश्यत् अप ४०, ५;

a) वस. उप. = २दक्षिणा-। b) वस.। c) वस. > कस.। d) तपा. आपध २, १७, २१ श्रुद्गोत्पन्नः इति पाठे.। e) वैप १ द्र.। f) वस. उप. = ज्या। g) \*लन्तः इति पाठः? यनि. शोधः [वु. Kbauer]।



४; प्रणश्येत अप ३७, ४, १; प्र...नश्येत् वाधूश्रौ २, २० : १. प्रणाशयेत् वौश्रौ २८, ११ : १६; वौध १, १, १५.

प्र-णाश- -शम् अप ८, १, ७; -शे वौश्रौ २८, ११ : ६.

प्र-नष्ट, ष्टा- -ष्टम् गौध १०, ३५; -ष्टा वाध १, ३८.

प्रनष्ट-स्वामिक- -कम् वौध १, १०, १६.

प्रनष्टे (ष्ट-इ) ण्डु-दिवाकर- -रौ अप ६४, ७, २.

प्र✓णि (<नि)ञ्, प्राणिजन् आपश्रौ ६, २०, २<sup>a</sup>.

प्र-णि (<नि) ✓घा> प्रणि-धि<sup>b</sup>-धिम् वैगृ १, २० : ११; ४, १ : १७; -धी वैगृ १, ११ : ७; १३; २० : १६.

प्रणि-हित-> ंता (त-आ)त्मन्<sup>c</sup>-त्मा आपध १, ४, २९; हिध १, १, १४८.

प्र-णि (<नि) ✓पत् > प्रणि-पत्य गौपि २, ६, १४; अप.

प्र-णि (<नि) ✓हन्, प्रणिहन्यते शुप्रा १, १२४; ४, १४०.

प्र✓णी (<नी), प्रणयते काठश्रौ २९; वौश्रौ १७, ३३ : ५; प्रणयति काश्रौ ५, ४, २; ६, २, ३; ८, ३, १९; १८, ३, १५; आपश्रौ; प्रणयतः आपश्रौ ८, ५, २२; ६, ७; वौश्रौ; प्र (नयन्ते) साश्र १, ४७८; प्रणयन्ति आश्रौ ३, १२, २४; शाश्रौ ३, १४, ८; ५, १४, १; जैश्रौ; प्रणयामि वौश्रौ २४, २५; ९; भाश्रौ; शांगृ १, ७, ९<sup>d</sup>; प्र...

नयन्त ऋप्रा ८, ४; ऋ; ऋप्रणयतु आपश्रौ १, १६, ८; भाश्रौ १, १८, ६; माश्रौ; ऋप्रणयन्तु आपश्रौ १२, २२, १<sup>e</sup>; वौश्रौ ७, १३ : २०; २२; माश्रौ; ऋप्रणय आश्रौ १, १२, १२; काश्रौ २, २, ८<sup>f</sup>; आपश्रौ; प्र...नय आपमं २, ११, २८; प्रणयत आश्रौ ४, ८, २३; ऋप्र (नयत) आश्रौ ३, ७, ५; शाश्रौ; प्रणयानि आपश्रौ १, १६, ८; प्रणयेत् आश्रौ २, २, ३; ६; ६, २x; आपश्रौ; प्रणयेयुः हिश्रौ १५, ६, ८; लुसू १, १० : १८.

प्रणिनाय वौश्रौ ४, १ : २७; ऋप्रणेष्यामि<sup>g</sup> आश्रौ १, १२, १२; काश्रौ २, ३, २; आपश्रौ; प्रणेषि वौश्रौ ३, ३० : २०; प्रणीयात् वाधूश्रौ २, १० : १२.

प्रणीयते आश्रौ १, १२, २६; शाश्रौ ३, १५, २१; वैश्रौ १०, ६ : ७; हिश्रौ ४, २, २२; या ७, १४.

प्र (निनीषति) साश्र १, ५८.

प्र-णय<sup>h</sup>- पाग ५, २, १३१; -यः या २, १४.

प्रणयिन्- पा ५, २, १३१.

प्र-णयत्- -यन् आपश्रौ ८, १, ६; ऋवौश्रौ २, १० : ८; २४, २५ : ९; भाश्रौ; -यन्तः साश्र १, ७४८; ऋप्र (णयन्तः) साश्र १, ७४; उनिस् ४ : ११.

प्र-णयन्- नम् काश्रौ ५, ४, ४; आपश्रौ ८, १, ८; ९, ७, २; मीस् ७, ३, १९; २३; -नात् आश्रौ

४, २, १२; आपश्रौ १५, १६, ७; वौश्रौ; -नाय वैताश्रौ १५, १४; -ने आश्रौ १, १२, २९.

प्रणयनी- -नी वाश्रौ १, ६, २, ६.

प्रणयन्-वर्जम् आपश्रौ ९, १, १४; भाश्रौ ९, १, १४; हिश्रौ १५, १, १४.

प्रणयना (न-आ) दि- -दि काठश्रौ ६३.

प्रणयनीय- -यः वौश्रौ ३, १ : १४; -यम् काश्रौ १, ३, २१; आपश्रौ.

प्रणयनीया (य-आ) धान- नम् काश्रौ ८, ६, २८.

प्रणयनीयाधाना (न-आ) दि- -दि काश्रौ १९, २, ४.

प्र-णयितुम् आपश्रौ १९, ४, १; हिश्रौ १३, ८, ३५.

प्र-णयित्वा जैगृ १, ११ : २; २, १ : ११.

प्र-णाख्य- पा ३, १, १२८; -ख्यः वाधूश्रौ ३, १८ : १६; ९२ : ७<sup>i</sup>; -ख्यम् वाधूश्रौ ३, १२ : ९; -ख्यान् वाधूश्रौ ३, ९२ : ४.

ऋप्र-णी<sup>j</sup>- -णीः आश्रौ १, ३, ६; शाश्रौ १, ४, २०; ७, ९, ३; -ण्यः ऋप्रा ५, ५४.

प्र-णीत्, ता<sup>k</sup>- -तः भाश्रौ ४, ३, १; कौस् ८९, १५; अप्राय; -तम् मागृ २, १३, ६; -तस्य वौश्रौ २, ७ : २०; वाश्रौ १, २, ३, २; -ता भाश्रौ १, ८, ६, २६; वैश्रौ ११, ८ : ४; -ताः आश्रौ १, १, ४; शाश्रौ १, ४, १५

a) पाभे. वैप १, २१३५ j द्र. । b) = प्रणीता-पात्र- । गस. । c) वस. । d) सपा. कौगृ १, ३, २ दधामि इति पाभे. । e) पाभे. वैप २, ३खं. प्रणेष्यामः शांत्रा ६, १२ टि. द्र. । f) उप. भावे कर्तरि च कृत् । g) प्रा० इति पाठः ? यनि. शोधः । h) वैप १ द्र. । i) नाप. स्त्री. = २अप्, [उपचारात्] पात्र- ।

१८, २४, २७; काश्रौः-तानाम्  
 वौश्रौ २७, १ : १२<sup>२</sup>; नाश्रौ १,  
 २, ३, १३; वाश्रौः-ताभिः  
 आपश्रौ १, २४, ३; वौश्रौ २६,  
 ३२ : ९; भाश्रौ १, २५, २;  
 -ताभ्यः आपश्रौ १, २४, ५;  
 वौश्रौः-ताम् वौश्रौ २४, ३७ :  
 ४; वाश्रु १, १२; वैश्रु ४, १ : ५;  
 -तायाम् वैश्रु १, १३ : १०;  
 २० : ४; ६; -तासु शाश्रौ ४,  
 ७, १८; काश्रौ १, ७, १८;  
 आपश्रौः-ते आश्रौ ३, १२,  
 २७; आपश्रौ.  
 प्रणीता-काल-ले शाश्रौ ४,  
 ७, १.  
 प्रणीता-चल-रः शाश्रु ५, ८, ३.  
 प्रणीता(त-त्रा)दि-दि काश्रौ  
 ५, ४, १९; ८, २, १६; मीसू ९,  
 १, २३.  
 प्रणीता( ता-त्र )नुहरण-णम्  
 काश्रौ ५, ८, २३.  
 प्रणीता( ता-त्र )प्-त्ताद्भ्यः  
 वौश्रु १, ४, ३८.  
 प्रणीता-पत्नीसंनहना (न-त्रा)सि-  
 मन्थना( न-त्रा )श्रुत-प्रत्याश्रुत-  
 प्रैष-यज्ञमानवाचन-होतृपदन-  
 चरण-प्राशिक्षा(त्र-त्र)ङ्गुलिपर्वा-  
 क्षना( ग-त्र )वान्तरैडाभागा-  
 (ग-त्र)पराग्न्य(त्रि-त्र) वन्धुय-  
 -यान् काश्रौ ५, ४, ३१.  
 प्रणीता-पात्र-त्रम् वाश्रौ १,  
 २, ४, ४; वौश्रु ४, १, ५.  
 प्रणीता-अणयन<sup>१</sup>-नम् शाश्रौ  
 ४, १४, २४; काश्रौ २५, ७, २८;  
 आपश्रौः-ने आमिश्रु १, ६, १ :  
 २७.

प्रणीता-प्रोक्षण-वत् आमिश्रु २,  
 ३, ४ : ८.  
 प्रणीता(ता-त्र)र्ध-र्थे मीसू ९,  
 ४, ३३.  
 प्रणीता-लोक-केन वौश्रौ २४,  
 १५ : १०.  
 प्रणीता-वत् भाश्रु १, ३ : ४; ३,  
 १६ : ४.  
 प्रणीतावद्-उपचार<sup>२</sup>-रम्  
 भाश्रु ३, १६ : ४.  
 प्रणीता-वर्जम् वैश्रौ १६, २३ : ४.  
 प्रणीता-शेष-षम् वाश्रौ १, १,  
 ४, २१.  
 प्रणीतो(ता-उ)त्कर-रौ काश्रौ  
 १, ३, ४२.  
 प्रणीतो( ता-उ )वृकुम्भ-न्मम्  
 वाश्रु १४, ६.  
 प्रणीति-तीः कौसू ५६, १६;  
 -तौ वाश्रौ ३, २, ४, १०१.  
 प्रणीनात् वौश्रौ २३, २ : १८.  
 प्रणीय आश्रौ १, १, २××; शाश्रौ.  
 प्रणीय-पा ३, १, १२३.  
 प्रणीयमान, ना-नम् दाश्रौ १४, ४,  
 १२; लाश्रौ ४, ९, १७; ५, ८, १२;  
 -नयोः वैताश्रौ ८, १७; -नस्य  
 नाश्रौ १, ५, ४, ८; ६, २, ५, ७;  
 -नाः आपश्रौ ४, ४, ४; भाश्रौ  
 ४, ५, ५; दाश्रौः-नानाम् आपश्रौ  
 १४, ८, ६; वौश्रौ २७, १ : १२;  
 हिश्रौ १०, ८, २३; -नाभ्यः  
 शाश्रौ ९, २४, ९८; -नान्भ्याम्  
 शाश्रौ ५, १४, ७; आपश्रौ ११,  
 १७, २<sup>३</sup>; वौश्रौः-ननाय काश्रौ  
 ८, ७, ४; आपश्रौ ७, ६, ४<sup>२</sup>;  
 वौश्रौः-नासु आपश्रौ १, १६,  
 ७; ४, २, ७; वौश्रौः-ने शाश्रौ

४, ६, १३; ८, १५, १०;  
 काश्रौः-नेभ्यः आपश्रौ १६,  
 २१, ३<sup>२</sup>; वौश्रौ १०, २७ : ११;  
 नाश्रौ ६, १, ६, १४<sup>२</sup>; वाश्रौ २,  
 १, ६, ५<sup>२</sup>; वैश्रौ १८, १६ : २८<sup>२</sup>;  
 हिश्रौ ११, ७, ४<sup>२</sup>; -नौ नाश्रौ  
 ५, २, १६, ८; दाश्रौ.  
 प्र-णेत(व्य>)व्या-व्यायापु, २३.  
 प्र-णेत-नंतः आश्रौ ३, ७, ११;  
 आपसं १, १४, ३; शुभ्रा १, १६८;  
 -तारः शंघ ३; -नवारम् वैताश्रौ  
 ४२, ८; अत्र २०, ४६; -गतौ  
 वा ६, १३; -रुभिः वौश्रौ १८,  
 ४० : २२; -तृन् वौश्रौ १८,  
 ४० : १७.  
 प्र-णेष्यत्-प्यत्सु आश्रौ ४, १०,  
 १; वौश्रौ २०, १ : ४१; दाश्रौ  
 १५, १, १; लाश्रौ ५, ९, १;  
 -प्यन् वौश्रौ ११, २ : ११;  
 १२××; भाश्रौः-प्यन्तम् वाश्रौ  
 १, १, ५, १०; -प्यन्तौ हिश्रौ ५,  
 २, १०.  
 प्र०णी(<नीं)सू(व्यघने)>प्र०णीश्च  
 आपश्रौ ७, २२, ९; २, १९, ४.  
 प्र०णु,णु (<नु,नु), णं(नदन्त)  
 ऋत्र २, १०, १७६; वृदे ८, ७४.  
 प्रणौति शाश्रौ ७, १०, ७; २५,  
 ६××; आपश्रौः प्रणुवन्ति आश्रौ  
 ६, ४, ३; ४; प्रणुयात् आश्रौ २,  
 १४, २९; ६, ३, ६××; शाश्रौ  
 ६, ३, १०; १८, १४, ५; प्रणुयात्  
 वौश्रौ १४, १० : २३.  
 णंप्रणोतुनः आश्रौ ७, ८, १; शाश्रौ  
 १२, ११, २०; ऋभ्रा ५, ५७.  
 प्रणोतुः ऋभ्रा ५, ५७.  
 प्र-णव<sup>३</sup>-वः आश्रौ २, १५, १४;

a) = चमस-विशेष- । उस. । b) विप. । वस. । c) सप्र. णाम्यः <> णेभ्यः इति पाठे. ।  
 d) वैप १ द्र. ।

५, ९, १०××; शांश्रौ; शुभ्रा ३,  
५१; पा ८, २, ८९; -वम् आपश्रौ  
२४, १३, १२; वौश्रौ; शंघ ११६:  
५६<sup>४</sup>; -वयो: लाश्रौ १, ३, ६<sup>४</sup>;  
-वस्य शैशि ३४९; ३५१; -वात्  
आश्रौ १, १२, १५; शांश्रौ; -वे  
आश्रौ ५, ९, ६; ७, ११, ३२;  
शांश्रौ; -वेऽ-वे आश्रौ ५, ९, ७;  
आपश्रौ २, १२, ४; वौश्रौ; -वेन  
आश्रौ १, २, १३; २७××;  
शांश्रौ; -वेषु आश्रौ ४, ६, ३<sup>४</sup>;  
८, ३, २१; शांश्रौ ५, ९, १६<sup>४</sup>;  
-वे: आपश्रौ १५, ८, १०; भाश्रौ  
११, ८, १४.  
प्रणव-नामन्- -मानि द्राश्रौ १,  
३, २९.  
प्रणवा(व-आख्या) > ख्य<sup>०</sup>-  
-ख्यस्य शुभ्र ४, १२६.  
प्रणवा(व-अ)ख्या- -ख्या शंघ  
१०७.  
प्रणवा(व-आ)त्मक<sup>०</sup>- -क: वौध  
२, १०, ६९.  
प्रणवा(व-आ)दि- -दि आश्रौ १,  
१२, १४; जैश्रौका ११५; वैश्र  
१, ७: ९; कप्र २, ९, २४;  
-दिभि: <sup>d</sup> वैध २, ८, ४.  
प्रणवादि-(क) > का- -का:  
वौश्रौ २८, ११: ९.  
प्रणवा(व-२आ)अ<sup>०</sup>- -अम् वैध  
२, ११, ७; -द्या: अप ४२, १, ९;  
वाध २५, १०; कौशि ७२.  
प्रणवा(व-अ)न्त- -न्तम् काश्रौ  
१९, ७, ७; -न्तयो: द्राश्रौ १,

३, ६<sup>४</sup>.  
२प्रणवा(व-अ)न्त,न्ता<sup>०</sup>- -न्त:  
आश्रौ ५, ९, ९; १०; ७, ११,  
३२; -न्तया वैश्रौ ९, ९: १३;  
वैताश्रौ ३०, २७; -न्तेन वैश्रौ  
९, ११: १४.  
प्रणवा(व-अ)न्वि(त) > ता-  
-ता वौध ४, ६, १.  
प्रणवा( व-अ )वसान- -नयो:  
काश्रौ ९, १३, २९.  
प्रणवो( व-उ )च्चारण- -णेन  
आमिश्र २, ४, १२: ९.  
प्रणवो(व-उ)परि कौशि ७२.  
प्रणवन- > णीय- -य: शांश्रौ  
७, २६, १०.  
प्रणुत- -तेषु माश्रौ २, ४, २, २५<sup>४</sup>.  
प्रणुत्य आश्रौ ४, ६, २××; शांश्रौ.  
प्र√णु( <तु)द्, ऋणुनोत्तु<sup>०</sup> वौश्रौ  
२, ९: ३; माश्रौ; हिश्रौ २, ७,  
१७<sup>४</sup>; जैश्र २, २: ४.  
प्रणुदते वौश्रौ २५, ६: ४;  
वाधूश्रौ ४, ६३: १२; प्रणुदति  
कौसू ४८, ५; ऋणुदाति शांश्रौ  
४, ४, २<sup>०</sup>; आपश्रौ; ऋणुदातु  
आश्रौ २, ६, २<sup>०</sup>; माश्रौ; वाश्रौ  
१, ३, ७, २०<sup>०</sup>; ऋणुदतु<sup>०</sup>  
वौश्र ३, ५, १२-१४; प्रणुदस्व  
आपश्रौ १, ८, ७<sup>४</sup>; प्र...  
नुदस्व कौसू ४८, ५<sup>४</sup>; ऋणु-  
(द) > दा आपश्रौ १७, ३, २;  
वौश्रौ १०, ४५: १; माश्रौ;  
प्र...नुदावहै भाग १, ७: १४<sup>४</sup>;  
प्रणुदत् अश्र २, ३४; ४, २२;

ऋणुदन्त आपश्रौ २१, ११, ५;  
६; वाधूश्रौ.  
प्रणुदत्- -दन् वृदे २, ६३.  
प्रणुदान- -न: शुभ्रा ३, ८८.  
प्रणुद्य सु १२, १.  
प्रणोद- -द: वौश्रौ १८, ४८: १.  
प्रणोदस् माश्र २, १७, १<sup>४</sup>।  
प्रणेत- प्रमृ. प्र√णी द्र.  
प्रणय(णि <नि]√अ)स् (क्षिपणे) >  
प्रणय(णि-अस्त) > स्ता- स्ता  
तैप्रा २, २०.  
प्रणयस्त-नीति<sup>०</sup>- -ति क्षुसू ३,  
३: १२; -तीनि निस् २, ३:  
१४.  
प्रणत<sup>१</sup>- > प्रत-त (त) > ती- ती  
निस् ३, ९: २१.  
प्रणत- प्र√तन् द्र.  
प्रणतक्वन्<sup>१</sup>- -क्वा शांश्रौ ६, १२, ८;  
आपश्रौ ११, १४, १०; वौश्रौ.  
प्र√तक्ष्, प्र...तक्ष्णयु: वौश्रौ १४,  
२८: ५; ६.  
प्रतत्- > प्रतद्-वसु<sup>१</sup>- -सू अप  
४८, ११५; निघ ४, ३; या ६,  
२१<sup>४</sup>.  
प्रततामह<sup>१</sup>- -ऋं ह वैताश्रौ २२,  
२२; कौसू ८८, ११; अप ४४,  
४, ५; अश्र १८, ४; -हस्य कौसू  
८८, ८; -०हा: ऋकौसू ८८,  
२४; २५.  
प्र√तन्, प्रतनुते वौश्रौ २, ७: ६<sup>४</sup>;  
प्रतनोति आपश्रौ २१, १७, ११;  
कौसू २०, १; ऋणुतनोपि वौश्रौ  
१०, ३२: ५; वैश्रौ १८, १७:

a) = स्यु-भेद- । सप्र. अणु २१९, २५ प्रसवम् इति । b) सपा. वयो: <> वान्तयो: इति पामे. ।  
c) विप. । वस. । d) वाद्यादि<sup>०</sup> इति पाठ: ? यनि. शोध: [तु. C., संस्कर्तु: टि. च] । e) पामे. वैप १,  
२१३८ C द्र. । f) क्तु इति पाठ: ? यनि. शोध: [तु. वौश्रौ. प्रमृ.] । g) परस्परं पामे. । h) प्रमो<sup>०</sup> इति  
पाठ: ? यनि. शोध: ( तु. सपा. ऋ १०, १६५, ५; BC., Knauer ) । i) प्र तुव्यसीम् ( ऋ १, १४३, १ )  
इत्यस्याद्यावयवानुकरणम् । j) वैप १ द्र. ।

३२; वीगृ ३, ९, ११.  
 प्रतायते आपश्रौ २०, ९, १२;  
 १३, १××; वीश्रौ.  
 २प्र-त्<sup>३</sup> -तानि कौश्रि ३०.  
 प्र-त्त- -त्तः हिष १, १, १२३; २,  
 २, २२; -तम् वीश्रौ ९, ६; ५;  
 -ते आपश्रौ ९, ४, ४; वीश्रौ  
 २३, १ : १५; भाश्रौ.  
 प्र-त्तव्य पावा ६, ४, ३७.  
 प्र-त्तन्वान- -न्त्य जुम् १, ४ : ३०.  
 प्र/तप्, प्रतपति काश्रौ ६, ६, १२;  
 माश्रौ १, २, ५, २; वैश्रौ; प्रत-  
 पतः वाधुश्रौ ४, २८<sup>४</sup> : २; प्रत-  
 पेत् वैताश्रौ १२, ३.  
 प्रतप्येरन् आमिष्ट २, ५, ९ :  
 १३; जैगृ २, ६ : ११.  
 प्रतापयेत् विष ७१, ३७.  
 प्र-त्तप- > °पो(प-उ)ल्लेखन-  
 -न्म् काष २७८ : ३.  
 प्र-त्तपन- पाग ३, ४, ७४; -न्म्  
 काश्रौ २, ३, ११.  
 प्रतपने (> °भे/कृ पा.) पाग  
 १, ४, ७४.  
 प्र-त्तस- > °स-कनक-प्र(भा > )  
 म- -माः अप ५२, ६, २.  
 प्र-त्तप्य काश्रौ २, ६, ३९××; माश्रौ;  
 प्रतप्यऽप्रतप्य काश्रौ २, ६, ४०.  
 प्र-त्ताप- > °प-वत्- -वान् अप  
 ५२, १०, १.  
 प्र-त्तापन- -न्म् कप्र १, ८, १४.  
 प्र-त्ताप्य आपश्रौ ६, ८, ४××; भाश्रौ.  
 प्र-त्तम<sup>३</sup> -मः या २, २२.  
 १प्र-त्तर<sup>०</sup> -> १प्रतरम्<sup>०</sup> आश्रौ ७,

९, ३; शाश्रौ ९, ३, ४; १२, १२,  
 ५; वापश्रौ; माश्रौ १, ५, २,  
 ११<sup>०</sup>; वाश्रौ १, ४, २, १<sup>०</sup>;  
 आगृ २, ९, २<sup>०</sup>; नागृ २, ७,  
 ५<sup>०</sup>; प्र(तरम्) वृदे ७, ४०.  
 १प्रतराम् आश्रौ १, ४, ८; आपश्रौ  
 ५, ९, १०<sup>०</sup>; वीश्रौ; हिश्रौ ३, ३,  
 ३०<sup>०</sup>; आपमं २, ११, २८<sup>१</sup>;  
 आमिष्ट ३<sup>०</sup>, ७, १ : २०; २१.  
 २प्रतर<sup>३</sup> -(> प्रातरीय- पा.) पाग ४,  
 २, ८०.  
 प्र-त्तर्दन- प्र/तृद् द्र.  
 १प्र-त्तवत्<sup>०</sup> -वसः आश्रौ ५, २०, ६;  
 -वसे वैताश्रौ ३६, १९.  
 प्र-त्तान<sup>३</sup> -पाग २, ४, ६९.  
 प्रताम् पाग १, १, ३७.  
 प्रति<sup>०</sup> आश्रौ २, ३, १४; ८, ३<sup>१</sup>××;  
 शाश्रौ; वीश्रौ ८, १९ : १९<sup>१</sup>;  
 द्राश्रौ १२, २, २३<sup>१</sup>; १५, २,  
 २०<sup>१</sup>; लाश्रौ ४, १०, २६<sup>१</sup>;  
 ५, १०, २०<sup>१</sup> विष ६०, २२<sup>१</sup>;  
 या १, ३; २, ६××; ऋप्रा १२,  
 २०<sup>१</sup>; १५, १७<sup>१</sup>; जुप्रा ६, १०<sup>१</sup>;  
 २४<sup>१</sup>; तैप्रा १, १७<sup>१</sup>; पा १, ४,  
 ३७; ९०××; पाग १, ४, ५८<sup>१</sup>;  
 प्रतिऽप्रति या १३, १०.  
 प्रति- -तिः पा १, ४, ९२; -तिना  
 पा २, १, ९; -तेः पा ५, ४, ८२;  
 ६, १, २५; १४१; २, १९३.  
 १प्रतिक<sup>३</sup> -पावा ५, १, २५.  
 २प्रतिक- (> प्रातिक्य- पा.) पाग ५,  
 १, १२८.  
 प्रति-कण्ठ<sup>३</sup> -ण्डम् ऋप्रा १, ५४<sup>०</sup>.

प्रातिकण्ठिक- पा ४, ४, ४०.  
 प्रति/कम्, प्रतिकामयते या ११,  
 १५.  
 प्रति-कामिद्- -मिनन् शाश्रौ ७,  
 ६, ९.  
 प्रति-कर्मन्<sup>३</sup> -र्म काश्रौ १, ३, २७;  
 भासृ ३, ५, १६; १८; ११, १, २.  
 प्रतिकर्म-इक्षिन्- -क्षिनः जुष २, ९.  
 प्रतिकर्म-विभाग- -नेन जुष १,  
 १३.  
 प्रतिकर्म-सोम<sup>३</sup> -साः काश्रौ २२,  
 ७, २१.  
 प्रति-कर्ष- प्रति/कृप् द्र.  
 प्रति-कार्ण्ड<sup>३</sup> -ण्डम् वीष १, २, ३.  
 प्रति-काम<sup>३</sup> -न्म् आश्रौ ९, १०, ७;  
 काश्रौ ४, ५, १५; द्रागृ १, २, २३.  
 प्रति-कार- प्रति/कृ द्र.  
 प्रति-कारक<sup>३</sup> -कम् पावा १, ४, २३.  
 प्रति/काश > प्र(ति > )वी-काश-  
 -साः वैताश्रौ ११, १३<sup>१</sup>; कौद्  
 ८२, ११.  
 प्रति/कीर्ति (< कीर्ति-), प्रतिकी-  
 र्त्यन्ते वृदे ७, १३९.  
 प्रति-कुम्भ<sup>३</sup> -म्भम् ऋप्रा ३, ९, १५.  
 प्रति-कूल<sup>३</sup> -पाग ५, १, १२४<sup>१</sup>; -ल्म्  
 वाधुश्रौ ३, ५५ : १; ४, ८५ : १५;  
 शंघ ७२.  
 प्रातिकूलिक- पा ४, ४, २८.  
 प्रातिकूल्य- पा ५, १, १२४.  
 प्रतिकूल-वृत्ति<sup>३</sup> -त्तिः शंघ ४१४.  
 प्रति/कृ, प्रतिकरोति भाश्रौ ८, ६,  
 २; प्रतिकुर्वन्ति वाधुश्रौ ४, १० :  
 ६; प्रतिकुर्वद् शंघ २७०;

a) कर्तरि ङः प्र. टसं. (पा ३, २, १०१)। b) = मुख्य-। अतिशयने तन्म् प्र.। c) वैप १ द्र.।  
 d) पाभे. वैप १, २१३९। द्र.। e) पाभे. वैप १, २१३९। द्र.। f) पाभे. वैप १, २१३९। ० द्र.। g) प्रावर-  
 इति। पक्षे। माण्डा.। h) व्यप.। व्यु. ?। i) पाभे. वैप १, २१४१। द्र.। j) आभिमुख्ये कप्र.।  
 k) तु. नतुः। ४, ४८। l) अन्व.। m) = कार्पायणिक-। n) अस.। o) = निपातन-। p) विप.। वस.।  
 q) विप.। प्रास.। r) तु. पागम.।

प्रतिकूर्वाण् वीथौ २३, ११ : ४;  
 प्रतिकुर्युः गीघ १२, ३७.  
 प्रतिकार्षीः जैय १, २ : २११.  
 प्रति-कार- -रम् शंघ १४५.  
 प्रतिकारौ(र-औ)षघ- -धात् शंघ  
 ३३५.  
 प्रति-क्रिया- -याः आज्यो ५, ७.  
 ?प्रतिकृतः वाथौ ३, २, ३, ३६.  
 प्रति-कृति<sup>१</sup>- -तिम् आपथौ १, २५,  
 ४; भाथौ १, २६, २; वैथौ ४,  
 १० : ७; हिथौ; -तौ पा ५, ३,  
 ९६.  
 प्रति-कृत्तिका- पा ६, २, १९३.  
 प्रति√कृप्, प्रतिकृष्येत मीसू ५, १,  
 २७.  
 प्रति-कृष- -र्षः मीसू १०, ५, ६२;  
 ६५; ६८; ११, २, ५५; -र्षम्  
 मीसू १०, ५, ६९.  
 प्रति-कृष्ट- > ष्ट-तर, रा- -रम्  
 वैथौ १४, १० : ५; हिथौ ७, ७,  
 २; ३३; -राम् आपथौ २, १०,  
 २३; भाथौ.  
 प्रति-कृष्य वीथौ ६, ५ : १३××;  
 वैथौ.  
 प्रति-कृष्णाजिन<sup>२</sup>- -नम् काथौ २,  
 ५, २.  
 प्रति√कलृप्, प्रतिकल्पयेत् निस्  
 ५, ९ : ११; २०.  
 प्रत्यकल्पयिष्यत्, निस् १०, ७ :  
 १५.  
 †प्रतिचाकल्पत्<sup>३</sup> आथौ ८, ९,  
 ७; शाथौ १०, ११, ९.  
 प्रति-कलस- -सम् आपथौ ९, १४,  
 ६; हिथौ १५, ४, १३.  
 प्रति√कम्, प्रतिक्रामति निस् १,

१ : ५; १०; १५.  
 प्रति-क्रान्त- -न्तम् वाधूथौ ३,  
 ३९ : २३.  
 प्रति-कामत्- -मत्सु वाधूथौ ४,  
 १०८ : ३.  
 प्रति-कामम् आपथौ २, १७, ५.  
 प्रति-क्रिया- प्रति√कृ द्र.  
 प्रति-क्षत्र<sup>४</sup>- -त्रः ऋअ २, ५, ४६;  
 शुअ ३, २०८.  
 प्रति√क्षिप् पा १, ३, ८०.  
 प्रति-खेटक- पा ६, २, १९३.  
 प्रति√ख्या > प्रति-ख्यात, ता- -तः  
 वीथौ २५, ६ : १६; अत्राय ३,  
 ३१; -ताः वीथौ २५, ६ : १२.  
 प्रति-ख्याय वीथौ १४, २३ : ७;  
 १८, ४८ : १२.  
 प्रति√गच्छ, गम्, प्रतिगच्छन्ति  
 वैथौ १४, १६ : १; हिथौ ७,  
 ८, २९.  
 प्रतिजगाम वृदे ७, ३.  
 प्रति-गर- प्रसृ. प्रति√गृ (शब्दे) द्र.  
 प्रति√गर्ज्, प्रतिगर्जति अप ६१,  
 १, २१; प्रतिगर्जेत् अप १,  
 ३६, १.  
 प्रति-गर्जन- -नम् अप ६१, १, १९;  
 -ने अप ६१, १, २४.  
 प्रति√गा, प्रतिगाम् आपथौ २, १,  
 ११.  
 प्रति-गीर्य प्रति√गृ (शब्दे) द्र.  
 प्रति√गृ (अवबोधने) > जागृ,  
 †प्रतिजागृहि आपथौ ६, १, ३;  
 भाथौ ६, ७, ४.  
 प्रति√गृ, गृ(शब्दे), प्रतिगृणाति आथौ  
 ८, १३, ८××; शाथौ; प्रतिगृणन्ति  
 काथौ २२, १०, ६; आपथौ २२,

१०, १५; हिथौ १७, ४, ३३;  
 प्रति...गृणीहि या ४, १६१;  
 प्रतिगृणीयात् वीथौ २१, २३ :  
 ४; २२; भाथौ ६, ११, ३.  
 प्रति-नार<sup>५</sup>- -रः आथौ ५, ९, ४;  
 १०××; शाथौ; -रम् शाथौ १२,  
 २३, ३; वीथौ; -रस्य शाथौ १०,  
 ५, १४; -राः आथौ ८, ३, १९;  
 २१; २३; वैताथौ ३२, २४;  
 -राय माथौ २, ४, २, २३; ४०;  
 ६, १३; -रे वीथौ १४, १० : ७;  
 १३; वाधूथौ; -रेण वाधूथौ ४,  
 ८९ : २७; -रौ आथौ ५, २०,  
 ६; ८, ३, २४; २५; वैताथौ ३२,  
 २७; २९.  
 प्रति-नारिवृ- -रिव्रे आथौ ९, ३, १५;  
 शाथौ १५, २७, १.  
 प्रति-नारिष्यत्- -ष्यति काथौ १९,  
 ६, २६; -ष्यन् काथौ १९, ५,  
 ७; आपथौ.  
 प्रति-नीर्य आपथौ १२, २७, १८××;  
 वीथौ.  
 प्रति-गृणत्- -णते वीघ २, १०, ६६.  
 प्रति√गृभ्, ह्, अम्, ह्, प्रति-  
 ग्रहेत् आमिगृ ३, १२, १ : १६.  
 प्रतिगृष्णामि आथौ ६, १२,  
 २१; प्रतिगृष्णीहि शाथौ १२,  
 १९, २१; प्रति...गृभाय कौसू  
 ६०, २८; †प्रतिगृष्णीत माथौ  
 ६, १, १, ४०<sup>६</sup>; ४, ३३<sup>६</sup>; वाथौ  
 २, १, १, ३०<sup>६</sup>; हिथौ ११, ५,  
 ८<sup>६</sup>; प्रत्यगृष्णन् शाथौ १२, १९,  
 १<sup>६</sup>; †प्रति...अग्रभीत् आथौ  
 ५, ७, ५; शाथौ ७, ६, ६; प्रति...  
 अग्रभीष्टाम् या ६, १६१;

a) नाप. । प्रास. । b) अस्. । c) पामे. वैप १, २१४३ h द्र. । d) व्यप. । e) वैप १ द्र. ।  
 f) पामे. वैप १, २१४४ a द्र. । g) पामे. वैप १, २१४४ f द्र. । h) पामे. वैप १, २१४४ g द्र. ।  
 2) पामे. वैप १, २१४४ i द्र. ।

प्रति...जगृभीषत शुभ्रा ६,७<sup>१</sup>.  
 प्रतिगृहीते वौगृ १, १०, ९;  
 प्रतिगृहाति शांश्रौ ४, २१, ७;  
 ७, १८, १; १६, १८, ९; काश्रौः  
 प्रतिगृहीतः काश्रौ १०, २, २७;  
 प्रतिगृहन्ति ङ्ङ्आपश्रौ ७, १२,  
 १०; १५, ४; वौश्रौ ४, ६ :  
 २३<sup>१</sup>; वैश्रौ १०, १० : १<sup>१</sup>;  
 कौगृ; प्रतिगृहामि ङ्ङ्आश्रौ १,  
 १३, १; ३, १, १७; ५, १३,  
 १५<sup>१</sup>; शांश्रौ; हिश्रौ १०, ६,  
 ९<sup>२०</sup>; मागृ १, ८, ६<sup>१</sup>; हिगृ १,  
 १३, १९<sup>१</sup>; कौस् ५६, ३<sup>१</sup>;  
 प्रतिगृहातु आश्रौ ५, १३,  
 १५; ङ्ङ्आपश्रौ १, २०, ११<sup>१</sup>;  
 वौश्रौ १, ६ : २६<sup>१</sup> × ×; ङ्ङ्माश्रौ  
 १, २२, ७<sup>१</sup>; २३, ८<sup>१</sup>; हिश्रौ १०,  
 ६, ९; वैताश्रौ ४, ३<sup>१</sup>; पागृ;  
 प्रतिगृहन्तु माश्रौ १, ८, ३;  
 ३<sup>१</sup>; भागृ २, १५ : १०<sup>१</sup>;  
 वैगृ; प्रतिगृहाण वृदे ५, ७९;  
 ङ्ङ्प्रति...गृहाण<sup>१</sup> आपमं १, १२,  
 ७; आमिगृ १, ५, ५ : १४;  
 हिगृ १, २५, १; अप्राय २, ५;  
 अप ३७, ५, ८; प्रतिगृहीत आपश्रौ  
 १६, ३, १४; १२, ११<sup>१</sup>; वौश्रौ;  
 प्रतिगृहानि वागृ १०, १६<sup>१</sup>;  
 ङ्ङ्प्रतिगृहाम आपश्रौ १४, १२,  
 ६; हिश्रौ १०, ६, ६; ङ्ङ्प्रत्यगृहन्  
 आपश्रौ १४, १२, ६; हिश्रौ १०,  
 ६, ६; प्रतिगृहीयात् आपश्रौ १४,  
 ११, १; ४; १२, २; वौश्रौ; प्रति...

गृहीयात् आपश्रौ १३, ७, १२;  
 प्रतिगृहीयुः आमिगृ २, ३, ३ :  
 २१; वैगृ ५, ६ : १९; प्रति...  
 गृहीयुः आपश्रौ १३, ७, १५.  
 प्रतिजग्राह वृदे ६, २३; प्रति-  
 जगृहुः वाघ ५, ८.  
 प्रतिगृह्यते वौघ २, ८, १७.  
 प्रतिग्राहयति वैताश्रौ ३४, १४;  
 वौगृ २, ११, २१.  
 प्रति-गृहीत, ता- -त्तः वाघ १५, ९;  
 -त्तम् वौश्रौ १६, २७ : ८; २१,  
 १० : १६; वौघ १, ११, २९;  
 -ता पागृ ३, १५, २१; -तायाम्  
 वैश्रौ ७, ३ : ९; -ते आपश्रौ  
 ३, ४, ४.  
 प्रति-गृहत्- -हत्तः वौघ २, २,  
 ८०; -ङ्ङ्हते शांश्रौ ७, १८,  
 १-५; कौगृ १, ८, १३.  
 प्रति-गृहान- -नः अप ४१, ३, ११;  
 वाघ ६, ३२.  
 प्रति-गृह्य आश्रौ १, ७, ३; १३, १ × ×;  
 शांश्रौ.  
 प्रति-गृह्य- पा, पावा ३, १, ११८;  
 -ह्यम् आपश्रौ १३, ७, १४;  
 वौगृ १, ७, २२; -ह्याणि आपघ  
 १, १८, १; हिघ १, ५, ७१.  
 प्रति-ग्रह<sup>१</sup>- -हः आश्रौ ५, ५, ११;  
 आमिगृ २, ६, २ : ६; वाघ; वौघ  
 २, ५, ३<sup>१</sup>; -हम् वौश्रौ १८,  
 २४ : २; ताश्रौ १०, १७, १७;  
 आमिगृ; -हे वौश्रौ २१, १० :  
 १३; कौगृ ३, ९, १२; शांश्रौ;

-हेण विघ ५७, ७.  
 प्रतिग्रह-प्रसङ्ग- -ङ्गम् विघ ५७,  
 ६.  
 प्रतिग्रह-मार्जन-वासः परिधान-  
 वर्जम् आमिगृ १, ६, ३ : ५९.  
 प्रतिग्रह-विधि- -धिम् विघ  
 ५७, ८.  
 प्रतिग्रह-समर्थ- -र्थः विघ ५७,  
 ९.  
 प्रतिग्रहे(ह-इ)ष्टका<sup>१</sup>- -काः वौश्रौ  
 १९, ७ : ५४.  
 १प्रति-ग्रहण- -णम् काठश्रौ १२१;  
 हिश्रौ १०, ६, ७; वौगृ; -णाः  
 आपश्रौ १४, १२, ५<sup>१</sup>.  
 प्रति-ग्रहीत्- -त्ता आश्रौ ५, १३,  
 १५; शांश्रौ ४, ७, १५; आपश्रौ  
 १४, ११, २; हिश्रौ; -तारम्  
 आपश्रौ १६, ३५, १; वौश्रौ ६,  
 ८ : ९; वैश्रौ १९, १ : ९; हिश्रौ  
 ११, ८, २१; -त्रे आपश्रौ १४,  
 ११ : २; हिश्रौ १०, ६, ९;  
 कौस् ६८, २३.  
 प्रति-ग्रहीष्यत्- -ष्यन् आपश्रौ १४,  
 ११, १; माश्रौ ५, २, १, २१;  
 हिश्रौ १०, ६, १; द्राघ ४, ४,  
 ५<sup>१</sup>; वाघ १५, ६<sup>१</sup>.  
 प्रति-ग्रहीष्यमाण- -णः वौघ ४,  
 २, ४.  
 प्रति-ग्राहक- -कान् निस् ८, ६ :  
 ५९.  
 प्रति-ग्राहयिष्यत्- -ष्यन् आगृ ४,  
 ७, १४.

a) पामे. वैप १, २१४४ II द्र. । b) पामे. वैप १, १२३७ O द्र. । c) प्रती इति पाठः? यनि.

शोधः (तु. Knauer) । d) पामे. पृ १००० i द्र. । e) सप्र. कौस् ५६, २; ५७, ४ प्रयच्छामि इति पामे. ।

f) पामे. वैप १, ९२५ I द्र. । g) पामे. वैप १, १४५३ j द्र. । h) पामे. पृ ९९९ Q द्र. । i) पामे. वैप १,

२१४४ II द्र. । j) पामे. वैप १, २१४५ III द्र. । k) उप. भावायर्थे जप् प्र. (पा ३, ३, ५८) । l) पामे.

वैप १, २१४५ k द्र. । m) = इष्टका-विशेष- । नलो. कस. । पू. ? । n) = मन्त्र- । उप. करणे कृत् । o) गृ

इति पाठः? यनि. शोधः ।

प्रति-ग्राहिन- ही वौश्रौ १३, ३३ :  
३; हिश्रौ २२, ५, १२.  
प्रति-ग्राह्य वौष २, ८, ७.  
प्रति-ग्राह्य- ह्यम् वैश्रौ १६, ८ : ३;  
वाध ५, ९; -ह्यस्य वौष २, ३, ८.  
प्रति-जिघृक्षत्- -क्षन् गौध २४, २.  
प्रति √गृह् प्रति √गृभ् द्र.  
प्रति-गृह्<sup>१</sup>- -हम् काश्रौ १५, ३, २.  
प्रति-गृहीत- प्रभृ. प्रति √गृभ् द्र.  
प्रति √गृ प्रति √गृ (शब्दे) द्र.  
प्रति √गृ (निगरणे), प्रतिजागर्मि या  
१०, ३३.  
प्रतिजागर या १०, ३३, ३३<sup>१</sup>.  
प्रति √गौ, प्रतिजगुः वृदे ८, ३८.  
प्रति √ग्रभ्, ह्, प्रति-ग्रह-, १प्रति-  
ग्रहण- प्रति √गृभ् द्र.  
२प्रति-ग्रहण<sup>२</sup>- -णम् हिश्रौ ८, ७, ४०.  
प्रति-ग्रहीत्- प्रभृ. प्रति √गृभ् द्र.  
?प्रतिग्रामन्ति आश्रौ ८, १३, ३१.  
प्रति-ग्राहक- प्रभृ. प्रति √गृभ् द्र.  
प्रति-घ- प्रति √हन् द्र.  
प्रति √घस्, प्रतिजघुः वौश्रौ १८,  
२९ : १९.  
प्रति-घात- प्रति √हन् द्र.  
प्रति √घुप् > प्रति-वोषि(न् >)णी-  
-०ण्यः शांश्रौ ४, १९, ८.  
प्रति √घुप् > प्रति-घृष्ट- > ०ष्ट-  
दृञ्(न >)ना<sup>३</sup>- -०ने सु ६, २.  
प्रति-घ्नान- प्रति √हन् द्र.  
प्रति √चक्ष्, प्रति...चष्टे भाश्रौ १०,  
२, २; ऋप्रतिचक्ष्व आश्रु ३, ५,  
७; कौश्रु ३, ७, १०; शांश्रु ४,  
५, ८; अप ४६, ६, ३; अत्र ८, ४.  
प्रति-चमस<sup>४</sup>- -सम् माश्रौ २, ५, १,  
३५.

प्रति-चमस-गणो(ण-उ)न्नयन<sup>५</sup>-  
-नम् वैश्रौ १७, ४ : ५.  
प्रति √चर, प्रतिचरति वौश्रौ १७,  
१५ : १२; १६ : २, ५; ८; प्रति...  
चरन्ति माश्रौ ५, १, ६, ३१.  
प्रति-चार- -रः वाश्रौ ३, २, २, ३०.  
प्रति-चिति<sup>६</sup>- -ति काश्रौ १२, २, १;  
१६, ७, २१.  
प्रति √चेष्ट् > प्रति-चेष्टित- -त्तानि  
अप ५३, १, १.  
प्रति-चोदन- -नम् आश्रौ १, ३, १७.  
प्रति √च्छद्, छद्, प्रतिच्छादयति  
कौसू ७९, २४.  
प्रति-च्छन्न, न्ना- -न्नम् आपध २,  
१८, १५; हिध २, ५, ६८; -न्नानि  
आपगृ ३, १४; -न्नम् आपगृ  
९, ६.  
प्रति-च्छाद्य वौश्रौ ४, २ : २७ x x;  
आमिगृ.  
प्रति-च्छन्दस्<sup>७</sup>- -न्दः उनिसू ३ : ७.  
प्रति-च्छन्दस्<sup>८</sup>- -सम् उनिसू १ : ४.  
प्रति-च्छा, छाया<sup>९</sup>, या- -याम् आमिगृ  
२, ४, ६ : ३३; -ये अप ७२,  
३, ८.  
प्रति √च्छिद् > प्रतिच्छिद्य शांश्रौ  
१, ६, ६; काठश्रौ १०.  
प्रति-च्छिन्न- > ०न्ना(ञ-अ)प्र<sup>१०</sup>-  
-ग्रम् वौश्रौ ३, २८ : ३ जैश्रौ २ :  
४; ८ : १३.  
प्रति √जन्, प्रतिजायते शैशि ३०९.  
प्रति-जनिप्यमाण- -णान् वौश्रौ  
१७, २८ : १७; हिश्रौ १२, ८, ७;  
आपगृ १२, ६१; हिश्रु ४, २८<sup>१</sup>.  
१प्रति-जन<sup>११</sup>- (> प्रातिजनीन- पा.)  
पाग ४, ४, ९९.

२प्रति-जन<sup>१२</sup>- पा ६, २, १९३.  
प्रति √जप्, प्रतिजपति हिश्रौ १५, ५,  
२७; गोश्रु १, ३, १९; कौसू ४२,  
२२; ७७, १०; प्रतिजपेत् अप  
१८, ३, २.  
प्रतिजाप्सीः जैश्रु १, २ : २०.  
प्रति-जपित- -ते हिश्रौ १५, ५, २७.  
प्रति-जाप- -पः कौसू ३६, २५.  
प्रति-जिघृक्षत्- प्रति √गृभ् द्र.  
†प्रति √जुप्, प्रति...जुपताम् शांश्रौ  
३, १८, १५; आपश्रौ ८, २०, ५;  
प्रति...जुषस्व आपमं २, १५,  
१८; २०; पागृ ३, ४, ७<sup>३</sup>; आमिगृ;  
प्रति(जुपेत) उस् ३, १.  
प्रतिजोषयेते या ८, १५<sup>४</sup>.  
प्रति-जुह्वत्- प्रति √हु द्र.  
प्रति √ज्ञा<sup>५</sup>, प्रतिजानीते आश्रु १, २३,  
१६; आपध २, ६, २<sup>६</sup>; हिध २,  
२, २<sup>७</sup>; प्रति...जानीते भाश्रौ  
१०, २, २; भाश्रु २, २५ : १५;  
प्रतिजानते निसू १, ३ : २३;  
गौध ११, १८; ऋप्रा १६, ४६;  
नाशि २, ५, २; प्रतिजानन्ति  
नाशि १, ८, ७; †प्रतिजानीहि  
शांश्रौ २, १६, २; वौश्रौ १४,  
१९ : २५; भाश्रौ; प्रतिजानीयात्  
आश्रु १, १३, ३; माशि ९, ९;  
१२, ९; नाशि २, ५, १०.  
प्रति-जानत्- -नम् कौसू ४९, १६.  
प्रति-जाना(न >) ना- -नाम् जैश्रु  
१, २१ : ३३.  
प्रति-ज्ञा- -ज्ञा चव्यू २ : ३०<sup>१</sup>;  
नाशि २, ७, १०; ११; -ज्ञाम्  
विध ८, ३८.  
प्रातिज्ञ<sup>६</sup>- -ज्ञम् शौच १, १.

a) अस. । b) वैप १ द्र. । c) विप. । वस. । d) अस. > पस. > पस. । e) अस.  
समासान्तपृट् प्र. उंसं. (पा ५, ४, १०३) । f) प्रास. नपुंसकत्वम् (पा २, ४, २५) । g) प्रास. । h) पाभे.  
वैप १, २, १४६ f द्र. । i) पा १, ३, ४६ परामृष्टः द्र. । j) = प्रतिज्ञासूत्र- (परिशिष्ट-भेद-) । k) तस्येदमीयः प्र. ।

प्रति-ज्ञात- -तानि आपश्चौ २०,  
१९,७; -तेषु अप ६६,१,१.  
प्रति-ज्ञान- -नम् शौच १, ८; -ने  
पा १,३,५२; पावा १, ३, २२.  
प्रति-ज्ञाय भाश्चौ १०, २,३.  
प्रति-तन्त्र<sup>३</sup>- -न्त्रम् आपश्चौ २४, १,  
२९; वौश्रौ २८, ४: १; हिश्रौ  
१,१, ६५; मीसू १२, १, ३५;  
४२.  
प्रति-तप<sup>३</sup>- -तपितपति शांश्रौ २, १७,  
३; आपश्चौ १,३,३; २, ५, १;  
वौश्रौ; प्रतितप आपश्चौ ६, २१,  
११; प्रतितपेत् आपश्चौ २,३,९;  
३, १०,५; वौश्रौ २०, २: १६-  
१८१; वैश्रौ २०, २: ४.  
प्रति-तपन- -ने वौश्रौ २०,२: १५.  
प्रति-तप्य शांश्रौ २, ८, ११××;  
आपश्चौ.  
प्रति-तप्यमा(न>)ना- -नायै  
वौश्रौ ४,७: २; ११,५: ४××.  
प्रति-तर- > त्राम् वाधूश्रौ ४,  
१०८: ५.  
प्रति-तारक<sup>३</sup>- -कम् वौश्रौ २२, ८:  
३३.  
प्रति-तिङ्, प्रतितितिङि आपश्चौ  
६,२१,११<sup>३</sup>.  
प्रति-तिष्ठत्- -ष्ठमान- प्रति-च्छा द्र.  
प्रति-तृप् > प्रति-तर्पण- -णम्  
वाश्रौ १, १, १, २१.  
प्रति-त्र्यह<sup>३</sup>- -हम् वौध २, १, ६३;  
गौश्र २३,२.

प्रति, तीथि<sup>३</sup>- > प्राति, तीथि<sup>३</sup>  
(य>) वी<sup>३</sup>- -वी आश्र ३,  
४, ४; कौश्र २, ५, ३; शांश्र ४,  
१०, ३; अप ४३, ४, २५.  
प्रति-दक्षिण<sup>३</sup>- -णम् मीसू ११,  
४,२.  
प्रति-दघ्, प्रतिदघ्नुयात् वाध १,  
२३.  
प्रति-दघ्, प्रति...दघति हिश्रौ  
१६,७, १७<sup>६</sup>.  
प्रति-दधान- प्रति-धा द्र.  
प्रति-दर्श-<sup>३</sup>, शन- प्रति-दृश् द्र.  
प्रति-दह, प्रति...दह ऋप्रा ८,  
२४१; प्रति(दह) जैश्र २,७:६१.  
प्रतिधाक्षीत् वौश्रौ २,५: ५१.  
प्रति-दह्यमान- -नान् सु ८, ५.  
प्रति-दा(दाने), प्रति...ददाति  
आपश्चौ २१, २२, ५<sup>६</sup>; प्रति...  
ददामि माश्रौ २,५,५, १८<sup>३</sup>.  
प्रति-दान- -नात् पावा ५,२, १४.  
प्रति-दाप्य- -प्यम् आपध २, २६,  
८; हिध २, ५, २०३.  
प्रति-दिन<sup>३</sup>- -नम् अप १८<sup>३</sup>, १९, ३<sup>३</sup>.  
प्रति-दिव् > प्रति-दिवन्- पाड १,  
१५६.  
प्रति-दिवस<sup>३</sup>- -सम् आमिश्र २, १,  
४: २४; विध ४७,७.  
प्रति-दिश, प्रतिदिशति निस् ४,  
९: १६; प्रतिदिशन्ति निस् २,  
३: १.  
प्रति-दिश<sup>३</sup>- -दिक् वैश्र १, ८: ४;

-दिश: भाश्रौ ७, २०, ७<sup>१</sup>.  
प्रतिदिग्-द्वार, रा<sup>३</sup>- -म् काश्रौ ७,  
१, १७; -राम् वैश्रौ १२, ४: ९.  
प्रति-दिश<sup>३</sup>- -शम् आश्रौ १, ११, ७;  
१२, ३५××; शांश्रौ ३, २१, ७<sup>१</sup>;  
काश्रौ ५, ४, १०; ९, ९, ५<sup>३</sup>××;  
आपश्चौ; वैताश्रौ २९, १३<sup>३</sup>.  
प्रति-दुह, \*धुप्, प्रतितुघाम् या  
१, ७.  
प्रति...दुहीयत् या १, ७<sup>१</sup>१<sup>३</sup>.  
प्रति-दुह<sup>३</sup>- -दुह: माश्रौ ५, २, ११,  
२४; -दुहा शांश्रौ १३, ६, ३<sup>३</sup>;  
काश्रौ २२, ९, ९<sup>३</sup>; ११, ९;  
काश्रौसं २९: २४; माश्रौ ३, ६,  
५<sup>३</sup>; ५, २, ११, ४; -दुहि आपश्चौ  
२०, २५, २; -धुक् आश्रौ ६, ८,  
९; काश्रौ ७, ८, ८<sup>१</sup>; आपश्चौ.  
प्रतिधुक्-श्रुति- -ते: काश्रौ ५,  
११, ७.  
प्रति-धुप्- -धुपा आपश्चौ १४, २४,  
१४<sup>३</sup>; २२, १०, ५<sup>३</sup>; १२, २०<sup>१</sup>;  
हिश्रौ १५, ६, १७<sup>३</sup>; १७, ४, २१<sup>३</sup>;  
२५<sup>३</sup>; ५, २३.  
प्रति-दृश्, प्रतिदृशं वौश्रौ १८,  
४५: १७.  
प्रतिदृश्येते आपधं २, १६, १२<sup>१</sup>.  
प्रति...दृशि शांश्रौ ६, ५,  
८<sup>१</sup>; ११प्रति(अदृशि) आश्रौ ४;  
१४, २; शांश्रौ ६, ५, २××;  
प्रति(अदृथन्) अश्र २, ७, ७८<sup>१</sup>;  
प्रति...अदृथम् आश्रौ ५, १,

a) अस. । b) पाभे. वैप १, ११४१ j द्र. । c) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । वस. इति वंत्वा २ ।  
d) आश्र. पाठः । e) = ऋषिका- ( वडवा- ) । अपत्ये ढक् प्र. ( पा ४, १, १२३ ) । f) उप. = २दक्षिणा- ।  
g) सप्र. प्रति... दघति <> प्रति...ददाति [धाति इत्यपि मूत्रे.] इति पाभे. । h) सप्र. तैश्र २, ३, १ प्रति...  
ददामि इति पाभे. । i) पाठः ? । सपा. तै ३, ३, १०, २ प्रसू. प्रदिशः इति पाभे. । j) विप. । वस. । k) अस-  
समासान्तपृ ष् प्र. ( पा ५, ४, १०७ ) । l) तु. आश्रौ २, ५, ७ भाष्यम्; वैतु. शांश्रौ. भाष्यम् C. च द्वि. युक्तः कप्र.  
प्रतिः इति । m) तु. चौसं. । n) शोधः पृ १२२६ DA द्र. । o) वैप १ द्र. । p) सप्र. प्रतितुहा <>  
प्रतिधुपा इति पाभे. ।



१००; प्रति (अदृश्रम्) शांश्रौ  
 ६,७,४०.  
 प्रति-दर्श- -शायि शांश्रौ ४,१८,७.  
 प्रति-दर्शन- -नम् या ७,३१.  
 प्रति-दृश्य कागृ २७,३.  
 प्रति-दृश्यमा (न >) ना- -नासु  
 आश्रौ ५,१,१०.  
 प्रति-दृश्य > श्या- -श्यायै वौश्रौ  
 २८,४: १६; आग्निगृ २,२, १:  
 ७<sup>१</sup>६.  
 प्रति-देवत<sup>b</sup>- -तम् काश्रौ १५, १०,  
 १२; २०, ८, ४; २१, १, १६;  
 वाश्रौ ३,२,६,५०.  
 प्रति-देह<sup>b</sup>- -हम् अप ३६, १५, १.  
 प्रति-दोष<sup>c</sup>- -षम् निसू २, १३:  
 २९०.  
 प्रति-द्रव्य<sup>b</sup>- -व्यम् कागृ ५२, ७.  
 प्रति-द्वार<sup>b</sup>- -रम् भाश्रौ ८, १५, ४;  
 वैगृ ३,७: १८.  
 प्रति ✓धा, प्रतिदधाति आपश्रौ १,४,  
 ११; भाश्रौ १, ४, ६ माश्रौ;  
 प्रति(दधाति) वौध ४,२,११<sup>१</sup>०;  
 प्रति...दधति वौध ४,२,११<sup>१</sup>०;  
 प्रतिदधामि वागृ १५, ११<sup>१</sup>०;  
 ङप्रति...दधामि वौश्रौ ३,१५:  
 १८; २५; प्रतिदधमः आश्रौ ३,  
 १४,१०<sup>१</sup>०; प्रति...दधालु कौगृ  
 १,१२, ६<sup>१</sup>०; ङप्रतिधत्स्व द्राश्रौ  
 १०,२,९; १०; लाश्रौ ३,१०,८;  
 ९; प्रतिधत् गोगृ २, ७, २०<sup>१</sup>०;  
 प्रत्यधत्ताम् वाधूश्रौ ४, ९९:  
 ४-६; १२; भाशि ११३;  
 प्रति...दधीमहि ऋप्रा ८,४४<sup>१</sup>०;

प्रतिदध्यात् कागृ १,१५,१०.  
 प्रत्यधास्यताम् वाधूश्रौ ४, ९९:  
 ९.  
 प्रतिधीयते वौश्रौ १०, १२: १;  
 प्रति...धीयते वाधूश्रौ ४, ९९:  
 १२; ङप्रतिधीयताम् आपश्रौ  
 १४, ३३, ८<sup>२</sup>; हिश्रौ १५, ८,  
 १४<sup>२</sup>; शांश्रौ ४,१८,४<sup>२</sup>; पागृ ३,  
 २, १२<sup>२</sup>; अप्राय ६, १<sup>२</sup>१६.  
 ङप्रति...धायि आपश्रौ १८,  
 १२, ९; वौश्रौ १०, ५६: ९; वाश्रौ.  
 प्रति-दधान- -नम् द्राश्रौ १, २, १०;  
 लाश्रौ ३, १०, ९.  
 प्रति-धातवे<sup>c</sup> वौश्रौ ८, १९: १२<sup>१</sup>०.  
 प्रति-धान- -नेन या ५, ११<sup>१</sup>०.  
 प्रति-धाय वाश्रौ १, २, १, २१.  
 प्रति-धि<sup>c</sup>- -धिः वैताश्रौ २०,  
 १३<sup>१</sup>०.  
 प्रति-धीयमान- -नम् या ११, ८<sup>१</sup>०.  
 प्रति-हित,ता- -तः आपश्रौ १८,  
 १७,३; १८, १४; वौश्रौ १२,  
 ११: ११××; वाश्रौ; -तम्  
 आपश्रौ १८, १६, १४; हिश्रौ  
 १३, ६; ३३; -तस्य वौश्रौ १२,  
 ११: १०; १२: ८; १३: २३;  
 वाश्रौ ३, ३, ३, ३७; -ताः  
 वौश्रौ २६, १०: १४; या १२,  
 ३७<sup>१</sup>०; -तानाम् वौश्रौ १५, २४:  
 २०; २५: ५××; -ताभ्याम्  
 आपश्रौ २२, १२, ८; -ताम्  
 वौश्रौ १८, ४८: १२; -ताय  
 आपश्रौ १८, १८, १४; वौश्रौ;  
 -तासु माश्रौ ३, ८, ४; -ते वौश्रौ

१२, ११: १०; -तेषु कौसू  
 ७५, १३.  
 प्रति ✓धाव् (गतौ), प्रतिधावतात् अप  
 १४, १, १३<sup>१</sup>०.  
 प्रति ✓धी > दीधि, प्रति...दीधिम  
 या ६, ८<sup>१</sup>०.  
 प्रति ✓धुप् प्रति ✓दुह् द्र.  
 प्रति ✓धृप् > प्रति-धृष्य- -ष्यः हिश्रौ  
 १४, १, ३८<sup>१</sup>०.  
 प्रति ✓धे, प्रतिधीयत भागृ ३, ६:  
 २१; प्रतिधयेत् वौगृ ३, ६, १.  
 प्रतिधापयति भागृ १, २५: ९.  
 ङप्रति-धा<sup>c</sup>- -धा या ५, ११<sup>१</sup>०.  
 प्रति-धाप्य आपगृ १५, ५.  
 प्रति-नक्षत्र<sup>b</sup>- -त्रम् अप १, ४२, ५;  
 १८<sup>२</sup>, १९, १.  
 ङप्रति ✓नद्, प्रतिनदति अप १,  
 ३२, १०.  
 प्रति ✓नन्द, प्रतिनन्दन्ति आपमं  
 २, २०, २७; २९; पागृ ३, २, २;  
 आग्निगृ; ङप्रतिनन्दन्तु हिगृ २,  
 १४, ४.  
 प्रति-नन्दि<sup>c</sup>- -ताः आपगृ २, १६.  
 प्रति-नन्द्य वैश्रौ १२, १८: १३.  
 प्रति ✓नम्, प्रतिनानाम ऋप्रा ९,  
 ४६<sup>१</sup>०.  
 प्रति-नमस्- > प्रतिनमस् ✓कृ,  
 प्रतिनमस्कुर्वात् अप्राय २, ९<sup>२</sup>.  
 प्रति-नमस्कार<sup>१</sup>- -रेभ्यः शांश्रौ ६,  
 २, २.  
 प्रति-नयत्- प्रति ✓नी द्र.  
 प्रति ✓नह > प्रति<sup>m</sup> [ती]नाह<sup>c</sup>-  
 -हम् आपश्रौ १६, १८, ४;

a) प्रती<sup>a</sup> इति पाठः? यनि. शोधः। b) अस.। c) वैप १ द्र.। d) पाभे. वैप १, २१४८ d द्र.।  
 e) पाभे. पृ ९९९ १ द्र.। f) सपा. प्रतिधीयताम् <> प्रतिभूषन्ताम् इति पाभे.। g) सकृत् प्रतिही<sup>o</sup>  
 इति पाठः? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ १४, ३३, ८<sup>२</sup>)। h) वैप १, २१४९ d द्र.। i) पाभे. वैप १, २१४८ j द्र.।  
 j) पाभे. वैप १, २१४८ o द्र.। k) पाभे. वैप १, २१४८ p द्र.। l) विप.। वस.। m) वैश्रौ. पाठः।  
 n) पाभे. वैप १, २१४९ j द्र.।

वैश्रौ १८, १५ : १२; हिश्रौ ११,  
६, २६.  
प्रति-नामन्<sup>३</sup> - म काण्ट ५२, ७.  
प्रति-नामधेय<sup>३</sup> - यम् मौसू ३, ७,  
२२.  
प्रति-नि✓गद् > प्रतिनि-गद्य काश्रौ  
६, १०, २३; आपश्रौ.  
प्रति-नि✓ग्रह > प्रतिनि-ग्राह्य<sup>३</sup> -  
-ह्यम् आपश्रौ १२, २०, १९<sup>०५</sup>;  
हिश्रौ ८, ६, १९; -ह्याः आपश्रौ  
१२, २१, २२; -ह्याणाम् आपश्रौ  
१२, २१, १०; -ह्यान् माश्रौ २,  
३, ८, २.  
प्रति-नि✓घा, प्रतिनिदधाति आपश्रौ  
१०, १३, ९; १६, ६, ३; वौश्रौ  
२८, ९ : १६; वाश्रौ; प्रतिनिद-  
ध्यात् शाश्रौ ३, २०, ९××;  
माश्रौ.  
प्रतिनि-धान- नम् वैश्रौ १८, ४ :  
४; -नेन काण्ट ४१ : ४.  
प्रतिनि-धाय काश्रौ २५, १४, २८;  
माश्रौ १, १, ३, १; या १२, १०.  
प्रतिनि-धि<sup>३</sup> - धयः वौश्रौ २८,  
६ : १५; वैश्रौ २०, ३५ : ६;  
हिश्रौ १५, ८, ७; -धिः आश्रौ  
३, १०, २; शाश्रौ ३, १९, २;  
काश्रौ; -धिम् वैश्रौ ११, ११ :  
२; २०, ३५ : ७; -धिषु आश्रौ  
३, २, १९; हिश्रौ ३, ७, ५३;  
निसू ३, १० : ३८; -धी वैश्रु २,  
१७ : ४; ३, ११ : ४; -धीन्  
वौश्रु ४, ९, १५; -धीनाम् शाश्रौ  
३, २०, १०; -धी काश्रौ १,  
४, १५; मौसू ६, ३, ३३; ९, ३,  
२६.

प्रतिनिधिक<sup>३</sup> - ऋः काश्रौ  
२५, १३, ४१.  
प्रतिनिधि-प्रतिदान- नयोः पा  
१, ४, ९२; -ने पा २, ३, ११.  
प्रति-नि✓नी, प्रतिनिनयति अप ४५,  
१, १३.  
प्रतिनि-नीय वैश्रौ ६, २ : ८.  
प्रति✓निन्द > प्रति-निन्दित-  
-ताः भाग्य १, १२ : १६.  
प्रति-नि✓यम् > प्रतिनि-यत् - न्तः  
आमिग्य २, ६, ४ : १९; -तानाम्  
आमिग्य २, ६, ४ : १६; शंघ  
१३२.  
प्रति-निर्✓अस् (क्षेपणे), प्रतिनिर्-  
स्यति आपश्रौ ३, १०, ४; भाश्रौ  
१, २४, २; ३, ९, ८; भाग्य ३, १८ :  
२०.  
प्रतिनिर्-अस्य आमिग्य २, ७, ९ :  
१५.  
प्रति-निर्✓ग्रह > प्रतिनिर्-ग्राह्य<sup>३</sup> -  
-ह्यम् वौश्रौ ७, १२ : १८<sup>५</sup>; २२;  
३५××; वैश्रौ १५, २५ : १४<sup>५</sup>;  
हिश्रौ ८, ६, १७; -ह्याणाम् वौश्रौ  
१४, १० : ३५; २१, १९ :  
१९; -ह्यान् वौश्रौ २१, १९ :  
२०.  
प्रतिनिर्ग्राह्य-पात्र- -त्रस्य वैश्रौ  
१५, २६ : ७.  
प्रति-निर्✓वप्, प्रतिनिर्वपति आपश्रौ  
१८, १०, २८; वौश्रौ १२, ५ :  
१०; १८; हिश्रौ १३, ४, १४<sup>५</sup>;  
कौसू ४८, २७; प्रतिनिर्वपत्  
वौश्रौ १३, १६ : २.  
प्रति-निर्✓वेष्ट, प्रतिनिर्वेष्टयते  
वौश्रौ २५, २ : ३.

प्रति-नि✓विश्रु > प्रतिनि-वेश्रु<sup>३</sup> -  
-शेन वौध ४, १, २२.  
प्रति-नि✓वृत्, प्रतिनिर्वर्तते विध  
६७, ३३.  
प्रतिनिर्वर्तयत वौश्रौ १४, १४ :  
१७.  
प्रति-निश- -शम् अप ७, १, १३.  
प्रति-निप्✓कृ > प्रतिनिप्-कार- -रम्.  
निसू ४, ७ : २७.  
प्रति-निप्✓क्रम्, प्रतिनिष्कामति  
आपश्रौ ३, २०, १०; १४, १०,  
९; हिश्रौ २, ८, ४३××; प्रति-  
निष्कामेत् आश्रौ ५, १, १४.  
प्रति-निप्✓पू, प्रतिनिष्पुनाति कौसू  
१४, २०.  
प्रति✓नी, प्रतिनयति भाश्रौ ११, ३,  
१; माश्रौ १, ६, १, १८; वाश्रौ १,  
२, २, ३३××; प्रतिनयेत् भाश्रौ  
१२, १, ५.  
प्रति-नयत् - यन् काश्रौ ५, ५, १२.  
प्रति-नीय कौसू १९, १९; २०,  
२५××.  
प्रति✓नुद्, प्रतिनुदति हिश्रौ ७, ५,  
११; ऋप्रति...नुदे आपश्रौ १३,  
१८, ९; वौश्रौ १४, २० : १७;  
२०; २४; प्रतिनुदतु वाश्रौ १, ३,  
६, ३<sup>५</sup>; हिश्रौ २, ४, ८; प्रति-  
नुदेत् माश्रौ ३, १, १४.  
प्रति-नु(त्त)त्ता- -त्ताम् आपश्रौ  
१३, ७, १२.  
प्रति-नोद- -दः<sup>३</sup> वौश्रौ १८, ४८ :  
५; -दाः निसू ३, १३ : ८.  
प्रतिन्यूहि<sup>३</sup> - ह्यः शाश्रौ १०, ५, १४.  
✓प्रतिन्यूहि, प्रतिन्यूहयति शाश्रौ  
१२, १३, ३.

a) अस्. । b) विप. > नाप. (पात्र-). c) प्रतिर्गो इति सा [तै. पृ २२७९] । d) सप्र.  
परस्परं पाभे. । e) नाप. । गत्. उप. किं. प्र. । f) = प्रति-निधि- । स्वार्थे ट्क् प्र. । g) = प्रतिवृत्ता- ।  
h) = एकाह-विज्ञेय- । i) प्रास. ।

प्रति-पक्ष<sup>a</sup> - क्षम् काण्ड ४५ : १४.  
 प्रति-पञ्चाह<sup>a</sup> - हम् लाश्रौ १०, ४, ९.  
 प्रति-पथ<sup>a</sup> - पावा ५, ४, १०७.  
 प्रतिपथिक-, प्रातिपथिक- पा ४,  
 ४, ४२.  
 प्रति ✓ पद्, ऋप्रति (अपञ्चहि) काश्रौ  
 ७, ९, ४; शुभ्र १, २८३.  
 प्रतिपद्यते आश्रौ २, १७, २, ४;  
 ६, ५, १७; शाश्रौ ५, १५, ९××;  
 काश्रौ; आपश्रौ १३, १६, १२<sup>b</sup>;  
 शाश्रु ४, ८, १२<sup>c</sup>; या ७, २३;  
 १४, ७; ८; प्रतिपद्यन्ते वौश्रौ  
 ४, २ : ४०; ६ : २६××;  
 वाधूश्रौ; ऋप्रतिपद्यताम् आश्रु  
 १, ५, ४; पाश्रु २, ६, २१<sup>d</sup>; प्रत्य-  
 पद्यत वृदे ३, १५०; प्रतिपद्येत  
 शाश्रौ १५, २, ५; आपश्रौ २१, ३,  
 ८; वौश्रौ; प्रतिपद्येरन् वाधूश्रौ  
 ४, १०७:७; वैश्रौ २१, १० : ५;  
 हिश्रौ १५, ६, २२.  
 प्रतिपेदे या २, १०; प्रतिपत्स्या-  
 महे निसू ४, २ : २.  
 प्रतिपादयति आपश्रौ २, १९, ८;  
 ८, १२, ६<sup>e</sup>××; वैश्रौ; प्रतिपाद-  
 यामि आपश्रु १, ६, १ : १६;  
 प्रतिपादयेत् आपश्रौ १२, १०,  
 १४; १३, ७××; हिश्रौ.  
 प्रतिपाद्येत शंथ ३३२.  
 प्रत्यपित्सीत् निसू ५, ८ : १५.  
 प्रति-पत्तय- न्यम् आवध २, १०,  
 १०; हिध २, ४, १०.  
 प्रति-पत्ति- पावाग ३, ३, १०८;  
 -त्ति- आश्रौ २, १९, ७; आपश्रौ

१९, ८, १३; काठश्रौ; -त्ति मीसू  
 ८, ४, २७; -त्ते गौध १८, २४;  
 -त्तौ वौश्रु ३, २, ५५.  
 प्रतिपत्ति-त्व- -त्वात् मीसू ११,  
 ४, ३५.  
 प्रतिपत्ति-दर्शन- -नात् मीसू  
 ११, ३, ९.  
 प्रतिपत्ति-भेद- -दात् ऋप्रा  
 १४, ६८.  
 प्रतिपत्ति-यथोक्त- -क्तम् अप  
 ६९, ६, ४.  
 प्रतिपत्ति-विधान- -नात् मीसू  
 ११, ३, ३३.  
 प्रतिपत्त्य (ति-अर्थ)- -र्थम् पावा  
 १, ४, २.  
 प्रति-पत्तुम् ऋप्रा १४, ६४.  
 प्रति-पत्स्यत्- -स्यन् आपश्रु ३,  
 ७, ४ : ३२; वौषि २, ४, १८.  
 प्रति-पद<sup>f</sup>- पाग ४, ३, १६; पावाग ३,  
 ३, १०८; -पत् आश्रौ ६, ५, ६<sup>g</sup>;  
 १०, १०, ४<sup>h</sup>; ६; शाश्रौ ३, २०,  
 ६<sup>h</sup>; ९, २०, ७<sup>h</sup>; १०, ३, ११<sup>h</sup>; ५,  
 ६<sup>h</sup>××; काश्रौ २५, १३, ३४<sup>h</sup>;  
 १४, ११<sup>h</sup>; वौश्रौ; लाश्रौ ४,  
 ६, १४<sup>h</sup>; ७, १<sup>h</sup>; -पत्सु वौश्रौ  
 १६, ३ : २७; २३, १० : ५;  
 -पदः शाश्रौ ११, १२, ९;  
 आपश्रौ; -पदम् आपश्रौ १४,  
 २२, ८; २३, १५; वौश्रौ; माश्रु  
 १, ४, १०<sup>i</sup>; आज्यो ६, ९<sup>i</sup>;  
 -पदा निसू ७, १० : १४; ८,  
 २ : ११; -पदाम् आश्रौ ५,  
 ९, २२<sup>j</sup>; शाश्रौ ९, २०, ६; निसू

९, १३ : ४५; -पदि आपश्रौ ४,  
 ९, २<sup>k</sup>; वौश्रौ २८, १२ : २१<sup>i</sup>;  
 २९, ८ : ५<sup>i</sup>; काश्रु ४८, १<sup>i</sup>;  
 माश्रु २, १८, १<sup>i</sup>; हिपि २१ :  
 ७<sup>i</sup>; अप १८<sup>i</sup>, ६, १; विध. ७८,  
 ३६<sup>i</sup>; -पदे आश्रौ ६, ५, २०;  
 शाश्रौ ९, २०, २८; -पदोः वैध  
 २, ११, ७<sup>i</sup>; -पदौ द्राश्रौ ८, १,  
 २०<sup>h</sup>; लाश्रौ ४, ५, १९<sup>h</sup>; क्षुसू;  
 -पद्भिः निसू ४, ४ : ८<sup>h</sup>.  
 प्रतिपद<sup>m</sup>- पा ४, ३, १६;  
 -दः अप ५०, ३, २; -दम् शाश्रौ  
 ७, १९, ८; -दाः क्षुसू १, ३ :  
 १७.  
 प्रतिपत्-ता- -ताम् निसू ५,  
 ६ : २.  
 प्रतिपत्-प्रभृति- -ति अप १८<sup>i</sup>,  
 २, १.  
 प्रतिपत्-समारोहणीय<sup>n</sup>-  
 -यानाम् शाश्रौ ६, ६, १७.  
 प्रतिपत्-सोम- -मः अप ७२,  
 ३, १३.  
 प्रतिपद्-अनुचर- -रयोः शाश्रौ  
 ८, ७, १०; -राः आश्रौ ५, १४,  
 ७; ८; ७, ६, ७; शाश्रौ १०, ९, ५;  
 १५; -रेभ्यः आश्रौ ५, १०, १३;  
 -रौ आश्रौ ५, १४, ४××; शाश्रौ.  
 प्रतिपद्-आदि- -दिषु अप ६३,  
 ३, ८.  
 प्रति-पद्य आश्रौ १, ३, ६; शाश्रौ;  
 कौश्रु ३, ९, ५५<sup>o</sup>.  
 प्रति-पन्न- पाग ६, २, १४६; -न्नः  
 हिश्रौ १०, ३, ३२; -न्नेन आपध

a) अस. । b) पाभे. पृ १६५४ d द्र. । c) सपा. कौश्रु ३, ९, ५५ प्रतिपद्य इति पाभे. । d) सपा.  
 माश्रु १, ९, २७ प्रतिमुच्यताम् इति पाभे. । e) पाभे. पृ ३२३ ह्र द्र. । f) वैप १ द्र. । g) = आया-ऋक्- ।  
 h) = प्रतिपत्ति- (तु. आश्रौ ३, १०, २२ भाष्यम्) । i) = तिथि-विशेष- । j) = तुच- इति भाष्यम् । k) = प्रारम्भ-  
 इति (पक्षे) भाष्यम् । l) प्रतिपदि ऽप्रतिपदि इति Knauer. । m) विप. (चन्द्र, तुच-) । n) = आद्यन्त-  
 (तु. भाष्यम्, ०. च) ।

२, १६, २५; हिध २, ५, २४.

प्रतिपक्ष-रश्मि<sup>२</sup>- -श्मिः या ५,

८.

प्रति-पादयितुम् शंघ २५३.

प्रति-पादयित्- -त्ता आपष २, २०,

१९; हिध २, ५, १०५.

प्रति-पादि(त>)ता- -त्ता विध

१५, ६.

प्रति-पाद्य वौश्रौ २४, २१ : ९; हिश्रौ.

प्रति-पद्<sup>३</sup>- -दम् गौपि १, ४, १५;

चव्यू २ : २८<sup>०</sup>; पावा १, ४, २.

प्रातिपदिक- -कम् पा १, २.

४५; पावा १, ४, १; -कस्य पा

१, २, ४७; पावा ४, १, १४७××;

-क्त्वा अप्रा २, २, ५; पा ४, १, १;

पावा ४, १, १७; -कानाम् पावा

१, २, ६४; -केन पावा ४, १, १४.

प्रातिपदिक-ग्रहण- -णम्

पावा १, २, ४७; ४, १, १; -णे

पावा ४, १, १.

प्रातिपदिक-त्व- -त्वम् पावा

१, २, ४५; २, ४, ८१; ३, २,

१२४; -त्वात् पावा ५, ३, ६८.

प्रातिपदिक-निर्देश- -शः

पावा ५, ३, २०.

प्रातिपदिक-प्रतिषेध- -धः

पावा १, ३, ३; ३, १, ११××.

प्रातिपदिक-मात्र- -त्रात्

पावा ४, २, ३४.

प्रातिपदिक-विज्ञान- -त्तात्

पावा ५, १, ५९; २, ५९; ७, १, २.

प्रातिपदिक-विशेषण- -त्व-

-त्वात् पावा ४, १, ३; ३४.

प्रातिपदिक-सामानाधि-

करण्य- -ण्ये पावा २, ३, १.

प्रातिपदिका(क-त्रा)गवय-

त्यादि-निवृत्त्य(त्ति-अ)र्थ-

-र्थः पावा १, ३, १<sup>१</sup>.

प्रातिपदिका(क-अ)न्त-

-न्तस्य पा ८, २, ७; पावा ८, ४,

११.

प्रातिपदिकान्त-नुम्-

विभक्ति- -क्तिप् पा ८, ४, ११.

प्रातिपदिका(क-अ)र्थ- पा

२, ३, ४६.

प्रातिपदिकार्थ-त्व- -त्वात्

पावा ४, १, ३.

प्रातिपदिकै(क-ए)का(क-अ)

न्त- -न्तः पावा २, १, २.

१प्रतिपद-विधान- -त्तात् पावा २,

४, १२; ८, २, ७२.

२प्रतिपद-विधा(न>)ता<sup>१</sup>- -त्ता

पावा २, २, १०.

प्रतिपद-विध्य(धि-अ)र्थ- -र्थम्

पावा ३, ३, ११; १३.

प्रतिपदो(द-उ)क्त- -क्तस्य पावा ६,

२, २.

प्रति-पञ्च- प्रति√पद् द्र.

प्रति-परा√ह, प्रतिपराहरन्ति वाधूश्रौ

३, ६१ : २.

प्रति-परि√कृप् > प्रतिपरि-कृष्य

माश्रौ ५, २, ३, १.

प्रति-परि√कम्, प्रतिपरिक्रामन्ति

माश्रौ १, ७, ६, ३९.

प्रतिपरि-कस्य माश्रौ १, १, २,

११××.

प्रति-परि√व्ये, प्रतिपरिव्ययति

आपश्रौ १०, ९, १४.

प्रति-परि√ह, प्रतिपरिहरति माश्रौ

१, १, २, ४१; ७, ६, ३९; वाश्रौ १,

२, ३, १४; प्रतिपरिहरन्ति वौश्रौ

४, ९ : २०; प्रतिपरिहरेत् वौश्रौ

२०, ३० : ६; ७.

प्रतिपरि-हरण- -णे वौश्रौ २०, ३० : ६.

प्रति-परी(रि√इ), प्रतिपर्येति काश्रौ

५, ८, २९; ६, ५, ४××; आपश्रौ;

प्रतिपरियन्ति आपश्रौ १४, २२,

२; १५, ८, १४××; वौश्रौ;

प्रतिपरीयुः आपश्रौ १५, १७,

९<sup>२</sup>; माश्रौ ११, १७, १२; १३<sup>२</sup>;

वैश्रौ.

प्रतिपरी(रि-इ)स्य वाधूश्रौ ३, ९० :

४; ८; वाश्रौ १, ४, ४, १०××;

छुम्.

प्रतिपर्या( रि-आ )यम्<sup>०</sup> वैश्रौ १०,

१२ : ६.

प्रति-परे(रा√इ) > प्रतिपरे (रा-इ)

त्य माश्रौ ३, १, १२; हिश्रौ ४,

५, ४७.

प्रति-पर्याय<sup>०</sup>- -यम् वाश्रौ १, १, १,

७१; माश्रु १, १७, ३.

प्रति-पर्या ( रि-आ ) √वृत्, प्रति-

पर्यावर्तते माश्रौ १, १, २,

२६××.

प्रतिपर्या-वृत्त्य शाश्रौ ४, ४, १४;

माश्रौ १, २, २, ५; कौसू ८८,

२१.

प्रति-पर्या(रि-आ) √ह > प्रतिपर्या-

हस्य शाश्रौ ७, ५, ४; वौश्रौ १,

१२ : ४४××; माश्रौ.

प्रति-पर्यन्त<sup>०</sup>- -न्तं तु ३१, ७.

प्रतिपवा(र्व-अ)वभृथ<sup>०</sup>- -थाः काश्रौ

२२, ७, १६.

प्रति√पश्, प्रतिपश्यति वौश्रौ ३,

२४ : १५; प्रति (पश्यति) अथ

९, ६ (५)†; †प्रतिपश्यामि

आश्रौ ८, १४, १८; आपश्रौ ३,

a) विप. । वस. । b) अस. । c) = उपान्न-विशेष. । d) \*काणपद<sup>०</sup> इति Kielhorn, भाण्टा. न ।

e) = पर्यायि-कारम् । f) पांमे. वैप १, २१५० h, २१६२ f द्र. ।

१९, ६; वौश्रौ.  
 प्रति-पश्यत्- -श्यन् गौध ९, १३.  
 प्रति-पशु<sup>१</sup>- -शु आपश्रौ १४, ७, ४;  
 १८, २, १६; वौश्रौ २६, ११ :  
 १२; माश्रौ ५, २, १२, ३०<sup>१</sup>;  
 वाश्रौ ३, २, ६, १; ४४; ४५; ४७;  
 वैश्रौ.  
 प्रति✓पा(पाने) > प्रति<sub>L</sub>ती<sup>१</sup>पान<sup>१</sup>-  
 > प्रातिपान<sup>१</sup>- -नम् माग्  
 २, ११, १७<sup>१</sup>.  
 प्रतीपाना(न-अ)र्थ- -र्थम् आपध  
 १, २८, २१; हिध १, ७, ५७.  
 प्रति✓पा<sup>१</sup> > प्रति-पाव(न् >)री<sup>१</sup>-  
 -र्थः वाधुश्रौ ३, १०० : ३.  
 प्रति-पाद<sup>१</sup>- -दम् साश्र २, ११८२.  
 प्रतिपादो (द-उ) क्त-देवताक्त<sup>१</sup>-  
 -कम् अश्र ७, ३०.  
 प्रतिभादयितुम्, °दयित्-, °दित्ता-,  
 °द्य प्रति✓पद् द्र.  
 प्रति✓पालि (< पाल-), प्रति-  
 पाल्यन्ते जैश्रौका ३४.  
 प्रति-पिण्ड<sup>१</sup>- -ण्डम् काश्रौ ४, १,  
 १६; माश्रौ १, १, २, २९; ३०;  
 वाश्रौ १, २, ३, २६; कौट.  
 प्रति✓पिप्, प्रतिपिनष्टि या ३, २१.  
 प्रति-पुर- पा ६, २, १९३.  
 प्रति-पुरुष<sup>१</sup>- -पम् शाश्रौ १७, ४, ७;  
 काश्रौ ८, १, १८; आपश्रौ.  
 प्रति✓पूज्, प्रतिपूज्यन्ते आज्यो १४,  
 १०.  
 प्रत्यपूजयत् वृदे ४, ११५.  
 प्रति-पूज्य अप १, ३१, ५.  
 प्रति-पूरुष<sup>१</sup>- -पम् वौश्रौ ५, ५ : ६;

१६ : १; २६, २५ : १५; भाश्रौ.  
 प्रति-पूर्वक<sup>१</sup>- -कम् वृदे ५, ९०.  
 प्रति✓पृ, प्रतिपूर्यते वाश्रौ २, १, ३,  
 ३१; माग् २, ११, ५.  
 प्रति...पूरयन्ति वौश्रौ १५,  
 १ : ४; प्रति...पूरयत वौश्रौ  
 ६, २३ : ६१; प्रतिपूरयेत् आग्  
 २, ८, २.  
 प्रति✓प्रच्छ् > प्रति-प्रश्न- -श्नात्  
 वैताश्रौ ३७, १; -श्ने वैताश्रौ  
 ३८, ५<sup>१</sup>.  
 प्रति-प्रणव<sup>१</sup>- -वम् काश्रौ ३, १,  
 १०××.  
 प्रति-प्रतीक<sup>१</sup>- -कम् आश्रौ ५, २०,  
 ६; कप्र २, १, ७.  
 प्रति-प्र✓दा(दाने) > प्रतिप्र-दाय  
 आश्रौ ६, १२, २.  
 प्रति-प्रधान<sup>१</sup>- -नम् मीसू ११, १,  
 ६१; २, २; ४, ४१.  
 प्रतिप्रधान-भाव- -वः मीसू ११,  
 १, ४.  
 प्रति-प्रभ<sup>१</sup>- -भः ऋश्र २, ५, ४९.  
 प्रति-प्र✓यच्छ्, प्रतिप्रयच्छेत् आश्रौ  
 ५, १२, १३; द्राश्रौ १३, २, ४;  
 लाश्रौ ५, २, ८; आग् १, ८, ९.  
 प्रति-प्रयोग<sup>१</sup>- -गम् कप्र १, ५, १<sup>१</sup>; ७.  
 प्रति-प्र✓वच् > प्रति-प्रोक्त<sup>१</sup>- -क्ते  
 कप्र १, ४, ९.  
 प्रति-प्र✓वृत्, प्रतिप्रवर्तयति कौसू  
 १४, २; प्रतिप्रवर्तयेत् अप ३७,  
 १, ११.  
 प्रति-प्र✓सू (प्रसवे) > प्रतिप्र-सव-  
 -वः मीसू २, ४, २८; -वात्

मीसू ६, ६, २५; ७, १९××.  
 प्रतिप्र-सूत- -तः पावा ४, ३, ३६<sup>१</sup>.  
 प्रति-प्र✓सृप्, प्रतिप्रसर्पन्ति आश्रौ  
 ५, ११, ४.  
 प्रतिप्र-सृप्य आश्रौ ५, ७, ११; १३,  
 १९; ६, ५, ४.  
 प्रति-प्र✓स्था > प्रतिप्र-स्थात्<sup>१</sup>-  
 पाउभो २, १, १४६; -फं०तः  
 काश्रौ ६, ५, २६; ९, ७, ४;  
 आपश्रौ; -ता आश्रौ २, १७,  
 १५; ४, १, ६; शाश्रौ; -तारः  
 वौश्रौ १५, १६ : ६; १९ :  
 १२××; वाधुश्रौ ३, ८२ : २;  
 -तारम् काश्रौ ९, १३, १९;  
 आपश्रौ १०, १, ९१; वौश्रौ; -तुः  
 आश्रौ ९, ४, १३; १२, ९, ६;  
 काश्रौ; -त्रे काश्रौ ५, ५, २१××;  
 आपश्रौ.  
 प्रतिप्रस्थात्-प्रमुख<sup>१</sup>- -खाः वैश्रौ  
 १७, १७ : ५.  
 प्रतिप्रस्थात्-मुख्य<sup>१</sup>- -ख्यान्  
 वाश्रौ ३, २, १, १४.  
 प्रतिप्रस्थान्ना(तृ-आ)दि- -दीन  
 काश्रौ १२, २, १७.  
 प्रतिप्र-स्थान- -नम् आपश्रौ १२,  
 २१, २१; भाश्रौ ११, ३ ६;  
 हिश्रौ ८, ६, ३८; २४, १, १८;  
 -नात् आपश्रौ १५, ३, ११; वैश्रौ  
 १३, ४ : ५; -ने माश्रौ २, ३,  
 ८, ९; ४, २, १६; ६, ६; -नेन  
 आपश्रौ १२, २१, १८; माश्रौ.  
 प्रतिप्रस्थान-ग्रह- -हः वैश्रौ १५,  
 २७ : १; ५<sup>१</sup>.

a) अस्त. । b) °ञ्यव्य° इति समस्तः पाठः? यनि. व्य° इति च शोधः (तु. सपा. वाश्रौ ३, २, ६, ४७) ।  
 c) आपध. हिध. पाठः । d) भाप. । e) विप. । तस्येदमीयः अण् प्र. । f) प्रति° इति वसं. । g) धा.  
 शोधने वृत्तिः । h) विप. (सिकता-) । i) विप. । वस. । j) वैप १ द्र. । k) वस. पू. = प्रतिनिधि- (तु.  
 संस्कृतुः टि.) । l) °श्नात् इति C. । m) = ऋषि-विशेष- । n) °तियो° इति BI. । o) = प्रत्यभिवादन- ।  
 p) तु. पासि. । q) प्रतिस्था° इति पाठः? यनि. शोधः ।

प्रति-प्रा(प्र/अ)ञ्(भोजने) > प्रति-  
प्रा(प्र-अ)शित-न्तम् कौस् ३८,  
१८.

प्रति-प्रा (प्र/अ)स् (क्षेपणे) > प्रति-  
प्रा(प्र-अ)स्य काश्रौ ६, ५, ४.

प्रति/प्री > प्रति-प्री<sup>a</sup>-प्रियम्<sup>b</sup>  
आपश्रौ १०, ६, ८; भाश्रौ १०,  
४, ५; वैश्रौ १२, ७ : १.

प्रति/वध्, न्ध्, प्रतिवध्नीयात् वैश्रौ  
२०, ५ : १.

प्रत्यवध्यत वृदे ६, १४.

प्रति-व(द्ध) > द्वा-द्वास् आमिष्ट  
३, ५, ३ : २.

प्रति-वध्यमान-न्तम् वौश्रौ २६,  
५ : २३.

प्रति-वन्ध- > न्ध-कर- -राणि  
अप ६५, ३, १.

प्रति-वन्धिन्-न्धि पा ६, २, ६.

प्रति-विम्ब- (> म्बित-पा.) पाग  
५, २, ३६.

प्रति-वीज<sup>c</sup>-जम् आपश्रौ ६, २९,  
१५.

प्रति/वुध्, प्रति (अवुध्न्) ऋप्रा २,  
७, ८०<sup>f</sup>.

प्रतिबुध्येत शंभ १३३; १३४.

प्रति-बुध्य भाश्रौ १०, ११, १२;  
हिश्रौ.

प्रति-बोध<sup>d</sup>-धः माष्ट २, १५,  
१<sup>f</sup>.

प्रति-बोधन-न्तम् अप ६८, २, १६.

प्रतिबोधना(न-अ)र्थ-र्थम्  
अप ७२, ५, ३.

प्रति-बोधिन-पाठभो २, १, १९१;

पाग ३, ३, ३.

२प्रतिबोध<sup>e</sup>- (> प्रातिबोध-<sup>l</sup>)  
°घायन-] पा. यक.) पाग ४, १,  
१०४; १००.

प्रति/ब्रू, प्रतिब्रूयात् आपश्रौ १४,  
२०, ८; वौश्रौ १८, २६ : २२;  
२२, १ : १०; माश्रौ; प्रतिब्रूयुः  
आमिष्ट २, ३, २ : १२; वैश्र.

प्रति/भक्ष्, प्रतिभक्षयति आपश्रौ १२,  
२५, २२x४; वैश्रौ १६, २० : ६;  
प्रतिभक्षयतः आपश्रौ १२, २७,  
९; १३, ८, २; वैश्रौ १५, ३५ :  
८; प्रतिभक्षयेत् आश्रौ ५, ८, ९;  
वौश्रौ २१, २० : २२; २३.

प्रति-भक्षण-णे वौश्रौ २१, २० :  
२२.

प्रति-भक्षित-न्तम् आश्रौ ५, ६, ३;  
शाश्रौ ७, ४, १५.

प्रति-भय<sup>f</sup>-यम् आष्ट १, १२, ५; ३,  
७, १०; -ये गोष्ट ४, ९, ८.

प्रतिभय-जन(न>)ना<sup>g</sup>-नाः अप  
७०<sup>h</sup>, ११, २९.

प्रतिभय-न्ता-न्ता अप ७०<sup>h</sup>, ११,  
१४.

प्रति/भा, प्रति...भाहि द्राश्रौ ३,  
४, २०; लाश्रौ १, १२, ५.

प्रतिवभौ या ४, ६.

प्रति-भा-भा, -भाम् या १४, ४.

प्रति-भाति-> ति-लिङ्ग<sup>i</sup>-ङ्गः  
या १४, ३.

प्रतिभानु<sup>j</sup>-नुः ऋश्र २, ५, ४८.

प्रति/भाप्, प्रत्यभापत वृदे ४, १२;  
५, १०१; ७, १५७<sup>k</sup>.

प्रति/भिद् > प्रति-भिन्न-न्तम्  
गो २, १७<sup>l</sup>.

प्रति/भू, प्रति...भवति वाधूश्रौ ३,  
४ : १३; प्रतिभवन्ति वाधूश्रौ  
३, ४ : १४.

प्रति-भू<sup>m</sup>-पाग ५, १, १२४; -भुवः  
विध ६, ४२; -भुवे, -भूः विध  
६, ४३.

प्रातिभाव्य-पा ५, १, १२४;  
-व्यम् वाध १६, ३१; विध ६,  
४१.

प्रातिभाव्य-वणिक्-शुल्क-  
मद्य-द्यूत-दण्ड-ण्डाः गौध  
१२, ३८.

प्रति-भूत-न्तम् सुध १३.

प्रति/भूप्, प्रति(भूपति) आश्रौ ४,  
१५, २; १०; साश्र १, ४१८;  
प्रतिभूपन्ति आमिष्ट २, ७१,  
५ : ११<sup>n</sup>; प्रतिभूपन्ताम् कौष्ट  
४, ४, १०<sup>n</sup>.

प्रति/भृ(=वृ/ह), प्रति...भर आपश्रौ  
१४, २९, २<sup>n</sup>; प्रति(भर) आश्रौ  
५, ७, ६; ८, १२, ६; शाश्रौ.

प्रतिभ्याम्<sup>k</sup> चाश्र १५ : ९.

प्रति/मन् > प्रति-मन्वान-नः  
आश्रौ १०, ९, २<sup>l</sup>; शाश्रौ १६,  
६, १; लाश्रौ ९, १०, १२; वैताश्रौ.

प्रति-मन्त्र<sup>a</sup>-न्त्रम् काश्रौ २, ५, ६;  
२६x४; आपश्रौ; -न्त्रेण वैश्र  
५, ६ : ७.

प्रतिमन्त्र-न्व-न्वात् मीस् १०,  
३, २६.

प्रतिमन्त्र-लिङ्ग-ङ्गः हिपि १६ : ५.

a) विप. (अन्-). गस. (तु. वैप १ अभि-प्री-). b) सप्र. हिश्रौ १०, १, ३९ प्रियम् इति पाभे. ।

c) अस. । d) नाप. । कर्तरि लच् प्र. । e) = ऋषि-विशेष- । f) प्रास. वा वस. वा (तु. अभा.). g) उप.

कर्तरि प्र. । h) विप. । वस. । i) = लप्रक- । उप. कर्तरि प्र. । j) पाभे. पृ १६७३ f द्र. ।

k) पाठः ? प्रति ल्यत्राम इति शोधः (तु. सप्र. मै २, ६, १२ प्रभृ., संत्कर्तुः टि. च) । l) 'चन्वा' इति पाठः ? यति.

शोधः (तु. सपा. मा २३, ५२) ।

प्रतिमन्त्रो( न्व-उ)क्त-देवता->  
व(त्य>)व्या-स्याः अत्र  
१०,६; ७.

प्रति√मन्त्रि (<मन्त्र-), प्रतिमन्त्र-  
यते वौश्री १, ९ : ७; ६, १५ :  
२७; १६ : १२; जैश्री; प्रतिमन्त्र-  
येत वौश्री २०, ८ : ३१; द्राश्री  
१, १, १०; ११, २, ३××; लाश्री;  
प्रतिमन्त्रयेत् गोगृ २, २, १३;  
प्रतिमन्त्रयेरन् द्राश्री ६, २, ५;  
लाश्री २, १०, ५.

प्रति-मन्त्रण- -णम् कौसू ९०, २६.  
प्रतिमन्त्रणा(ण-अ)न्त<sup>२</sup>- -न्तम्  
कौसू ६८, ३३.

प्रति-मन्त्रित- -ते कौसू ६६, ३××.  
प्रति-मन्त्र्य भागृ २, २४ : १; २५ :  
३; कौसू ९०, ९.

प्रति-महाव्याहृति<sup>२</sup>- -ति काश्री २०,  
५, १६; २५, १, १२; -तिभिः  
पागृ १, १५, ५८.

प्रति√मा ( माने ), प्रतिमिमीते कौसू  
२०, ६; प्रति (मिमीते) अत्र ९,  
१०<sup>१</sup>; प्रतिमिमीते या ५, १२.

प्रति-मा<sup>१</sup>- -मया आपश्री ४,  
५, ४; ९, १३, ६; माश्री ४, ६,  
७; वैश्री; -मया आपश्री १६,  
२८, १; वौश्री; पागृ ३, २, २०;  
-माम् आपश्री १७, ९, ३<sup>१</sup>;  
वाश्री; आमिगृ २, ४, १० : १२;  
-मायाः हिश्री ७, १, ३१;  
-मायाम् आमिगृ २, ४, १० :  
४; -मासु कप्र १, १, १४.  
प्रतिमा-भूत- -ताः शुश्र १, ८.

प्रतिमा(मा-आ)राम-कूप-सकर्म-  
ध्वज-सेतु-निपान-भङ्ग- -ङ्गेपु  
शंघ ३२७.

प्रतिमो(मा-उ)परि वैताश्री ३३, ८  
प्रति-माण- -णम् वौगृ २, ११,  
३३<sup>१</sup>.

प्रति-मान<sup>१</sup>- -नम् आश्री ९, ५,  
१६<sup>१</sup>; विध १०, ५; -नानि  
या ५, १२<sup>१</sup>; ११, २१<sup>१</sup>××.  
प्रतिमान-पुरुष- -वौ विध १०,  
६.

प्रति-मातृ<sup>१</sup>- -नृ गौध २८, १७.

प्रति-मास<sup>२</sup>- -सम् वाध १९, २८;  
शंघ २५२; विध ६, २××.

प्रतिमासिक- -कम् कप्र ३, ५, १३.

प्रतिमास्य- -स्यानि कप्र ३, ५, ८.

प्रति√मि ( क्षपणे ), प्रतिमिन्वन्ति  
वाधूश्री ३, ६९ : २९.

प्रति√मीच्, प्रतिमीवति आपश्री १९,  
२५, १८; वौश्री १३, ३८ : २;  
हिश्री २२, ६, ३.

प्रति-मुख<sup>२</sup>- -खम् वौश्री १, १६ :  
८; १०××; आपध २, १२, ११;  
हिध २, ४, ४८.

प्रति√मुच्,ञ्च्, प्रतिमुञ्चते आश्री  
४, ९, ५; शाश्री ३, ११, १४;  
काश्री; या १२, १३<sup>२</sup>; प्रति  
(मुञ्चते) शाश्री ५, १३, ७<sup>१</sup>;  
प्रतिमुञ्चति शाश्री १६, १, ६;  
काश्री ६, १, २८<sup>१</sup>; ३, ४; आपश्री;  
प्रतिमुञ्चन्ति आश्री ६, १०, ४;  
वौश्री १७, ४१ : ११; वाश्री ३,  
२, १, २४; हिश्री १४, ३, २२;

आमिगृ १, ३, ४:५<sup>१</sup>; प्रप्रतिमुञ्चे  
वौश्री १७, ४२ : ३; आमिगृ  
१, ३, ५ : ६<sup>१</sup>; भागृ २, २२ :  
५<sup>१</sup>; हिगृ १, ११, ४<sup>१</sup>; प्रप्रति-  
मुञ्चामि आपश्री ७, १७, ७;  
वौश्री ४, ६ : ४०××; आपध  
१, ४, ११<sup>१</sup>; आमिगृ; प्रप्रति<sup>१</sup>  
मुञ्चते वैताश्री ३८, ६<sup>१</sup>; प्रति-  
मुञ्च पागृ २, २, ११; वौगृ २,  
५, ७; प्रतिमुञ्चतम् कौसू ५८,  
१<sup>१</sup>; प्रत्यमुञ्चत् शाश्री १४,  
७, १; अर्प १ : २१<sup>१</sup>; प्रति-  
मुञ्चते वाधूश्री ३, १०१ : ७;  
हिगृ १, १६, १६; प्रतिमुञ्चेत  
आपश्री १०, ८, १४; प्रतिमुञ्चेत्  
लाश्री ९, २, ९; द्रागृ ३, १, २२.  
प्रतिमुञ्चते अप २०, ७, ४; प्रति-  
मुञ्चताम् भागृ १, ९, २७<sup>०</sup>;  
प्रतिमुञ्चते शंघ ४२.

प्रति-मुक्त,क्ता- -क्तम् आश्री ९, ९,  
८; काश्री २०, १, २०; द्राश्री;  
-क्तया लाश्री ९, २, १२.  
प्रति-मुच्य, >च्या काश्री २, ७,  
२××; आपश्री; माश्री १, १, २;  
८<sup>१</sup>.

प्रति-मुञ्चत्- -ञ्चन् काश्री २०, १,  
९; वौगृ २, ५, ७; १६.

प्रति-मुञ्चमान- -नाः आश्री २;  
६, २; शाश्री ४, ४, २; आपश्री.

प्रति-मोचन- > न-प्रभृति-  
-ति माश्री ६, १, ४, २४.

प्रति√मुद्, प्रप्रतिमोदध्वम् वौश्री  
१०, ४ : २४; वैश्री १८, १ : ५५.

a) वस. । b) अस. । c) णि इति लाघासं. । d) वैप १ द्र. । e) पाभे. वैप १, २१५२ h द्र. ।  
f) = सोपान- (तु. सप्र. मनु ९, २८५) । g) प्रथमानम् इति पाठः? (तु. १९२० संस्करणम्, तैत्रा २, ५, ८, १२ च) ।  
h) पाभे. वैप १, २३९७ i द्र. । j) पाभे. वैप १, २१०१ n द्र. । j) अस. उप. = जननी- । k) तु. चौसं. ।  
l) सपा. आपध २, ८, १० अपिनहे इति पाभे. । m) पाभे. वैप १, २१५३ o द्र. । n) पाभे. वैप १,  
२१५३ g द्र. । o) पाभे. पृ १६७५ d द्र. ।

प्रति√मृञ्, प्रतिमार्ष्टि आपश्चौ २,८,  
५,३,६,८; १८,३, २; भाश्चौ.

प्रति√यञ्, प्रतियजति आपश्चौ १४,  
७,९; वौश्चौ १५,३४:६; भाश्चौ  
७, २०, ७; ८, ३,१५; भाश्चौ;  
प्रतियजेत् आपश्चौ ७,२५,१४;  
वौश्चौ २०, ३०:११×५.

प्रतो(ति-इ)ज्य आपश्चौ ८,३,१२.

?प्रतियज्ञांश- -शे वाश्चौ ३, ४,३,  
१७.

प्रति√यत्, ऋप्रति...यातयामः<sup>०</sup>  
आपश्चौ १३, २२,५; वौश्चौ ४,  
११:१५.

प्रति-यत्<sup>०</sup>- -त्ते पा २,३,५३.

प्रतियत्-वैकृत-वाक्याध्याहार-  
-रेपु पा ६,१,१३९.

प्रति√या> प्रति-यायिन्- पाउभो  
२,१,२९०; पाग ३, ३,३.

प्रति√यु (बन्धने), प्रतियौति आपश्चौ  
२,८,५; वौश्चौ ८, २०: २१;  
वैश्चौ; वौघ् १,८,१०<sup>०</sup>.

ऋप्रति-युत्- -त्तः<sup>०</sup> आपश्चौ ८, ८,  
१८×५; वौश्चौ.

प्रति√युञ्, प्रतियुज्यते वाघ २६,  
१९<sup>२</sup>.

१प्रति-योग- -गात् वृदे ३, ५२.

प्रति-योगिन्- पा ३,३,३.

प्रति√युघ्>प्रति-योधिन्- पाग ३,  
३,३.

प्रति-यूप<sup>०</sup>- -पम् काश्चौ २०,४, २१;  
आपश्चौ १४, ५, २०; हिश्चौ.

२प्रति-योग<sup>०</sup>- -गम् पावा १,३, ११.

प्रति-योजन<sup>०</sup>- -नम् द्राश्चौ ६,३,६.

प्र-तिर- प्र√तृ द्र.

प्रति√रक्ष् > ऋप्रति-रक्षत्- -क्षन्  
वौश्चौ ८,१९:१८.

१प्रतिरथ<sup>०</sup>- -थः ऋअ २,५, ४७.

२प्रति-रथ<sup>०</sup>- -थम् वाश्चौ ३, १, २,  
९.

प्रति-राज<sup>०</sup>- -जेन अप १,९,१.

प्रति-राजन्- पाग ६, २, १९३;  
-जभ्यः आपश्चौ १८, २२, ३;  
वौश्चौ १२, १९: १३; हिश्चौ  
१३,७, २५; -जा वाघूश्चौ ३,  
६९:४.

प्रति√राध्, प्रतिराध्नुवन्ति वौश्चौ  
१६,३०:७.

प्रति-राद्- -द्ः<sup>०</sup> आपध् १, २४,  
२१; हिघ् १,६,६९; गौघ् २२,  
७.

प्रति, ती<sup>०</sup>राघ<sup>०</sup>- -घः वृदे १, ३७;  
५५; -घाः शांश्चौ १२,२१,२<sup>६</sup>;  
-घान् वैताश्चौ ३२,२२<sup>६</sup>.

प्रति-राप्<sup>०</sup>- -प्स्य हिश्चौ १४, २,  
४३;६,१०;२८.

प्रति√रिह्, ऋप्रति...रिहन्ति आपश्चौ  
४,७,४; शांश्चौ ५,१०, २३.

प्रति√रुघ्> प्रति-रुद्- -दस्य अप  
३३,२,३.

प्रति, > ती<sup>०</sup>रोध- पावाग ६, ३,  
१२२.

प्रति-रोधिन्- पाग ३,३,३.

प्रति-रूप<sup>०</sup>- -पम् शांश्चौ ८, १६, ३;  
कौस् ४६,३; विघ् ६६,४; -पा:

आपश्चौ १,८,७<sup>१</sup>; -पान् माघ  
२,१०,२.

प्रतिरूप-क<sup>०</sup>- > १प्रतिरूपक-  
वृत्ति- -त्तिः सुघप ८६: २.  
२प्रतिरूपक-वृत्ति<sup>०</sup>- -त्तिः शंघ  
३२०.

प्रतिरूप-विक्रय- > ०<sup>०</sup>यिक- -कस्य  
विघ् ५,१२४.

प्रति-रोटक- पाग ६, २,१९३.

ऋप्र-√तिल्, प्रतिलामि शांश्चौ १६,  
४, १<sup>०</sup>; प्रतिलानि आपश्चौ १०,  
८,१०<sup>०</sup>.

प्रति√लम्, प्रतिलभन्ते भाश्चौ ८,  
२१,११; माश्चौ १,७,७,८.

प्रति-लभ्य आपश्चौ ८,१८,४; भाश्चौ.

प्रति√लिप्, म्प्, प्रतिलिम्पति वौश्चौ  
१४,७:९; १९;२९.

प्रति-लेपम् वौश्चौ ९, ३:२३;  
१०,६:१; वैश्चौ १८,१:७७.

प्रति√ली > प्रति-लीन- -नः कौघ  
३,१,५; शांघ् ३,१,१२.

प्रति√लु, प्रतिलुनाति भाश्चौ १,१,  
१,३४; वाश्चौ १, २,१,१६.

प्रति√लुप्, म्प्, प्रतिलुस्पन्ति वौघ  
२,८,१५.

प्रति√लुभ् > प्रति-लोभय(त् > )  
न्ती- -न्ती या ९,३३<sup>१</sup>क<sup>०</sup>.

प्रति-लोभयमा(न>)ना- -ना या  
९,३३.

प्रति-लोम, मा(वप्रा.)<sup>०</sup>- पा ४,४,२८;  
५,४,७५; पाग २,४,६९<sup>१</sup>; -मः  
आश्चौ ११, ३, ८; काश्चौ; वौघ

a) पाभे. वैप १,१८१६ a द्र. । b) = गुणान्तराधान- । c) तप्र. आपश्चौ १९, १०,५ प्रत्यस्यति इति, आपश्चौ १३,२२,५ प्रत्यसित्वा इति च पाभे. । d) पाभे. वैप १,२१५४ a द्र. । e) अस्. । f) = ऋषि-विशेष- । g) प्रास. समासान्तप् ट्च् प्र. । h) पाभे. पृ २२५ j द्र. । i) शांश्चौ. पाठः । j) वैप २, ३खं. द्र. । k) = [कौन्तापीय-] मन्त्र- । l) प्रास. । m) विप., नाप. । वैप १ द्र. । n) स्वार्थे प्र. । o) विप. । घस. । p) पाभे. वैप १,२१५४ k द्र. । q) पाभे. वैप १,२१५३ n द्र. । r) विप., नाप. । व्यु. वैप १, २१२m, २१५४ n च द्र. ।



१, ९, १०<sup>a</sup>; वैध ३, ११, २<sup>b</sup>;  
-मम्<sup>c</sup> आश्रौ २, ११, ४; काश्रौ  
१३, २, १५; १४, १, ६××;  
आपश्रौ; या १, २; -मया  
अप ३१, ८, ५; -मा: आश्रौ  
११, ३, ८; काश्रौ १५, ४,  
२८××; द्राश्रौ; गौघ ४, १७<sup>d</sup>;  
पा २, ४, ६९<sup>e</sup>; -मात्<sup>f</sup> वैध ३,  
११, २; गौघ ४, २५; -मान्  
द्राश्रौ ८, ३, २४; लाश्रौ ४, ७,  
५; -मानि निस् ६, ५: २१;  
-माम् अप ३१, ९, ४; -मासु  
वौघ १, ८, ८; विघ १५, ३७;  
१६, ३; गौघ २८, ४६; -मे  
आश्रौ १२, ५, ३; काश्रौ २४,  
४, १५; -मेषु अप ५२, १, ८;  
वैध ३, १३, ८<sup>g</sup>; ऋप्रा २, १०;  
-मै: आश्रौ १२, ३, ५; द्राश्रौ;  
-मौ वौश्रौ २६, ३३: ५.

प्रतिलोमी<sup>h</sup>- -म्याम् वैध  
३, ११, २.

ःप्रातिलोमिक- पा ४, ४, २८.

ःप्रातिलोम्य- -म्यम् या १, ३<sup>i</sup>;

-म्ये पा ५, ४, ६४.

प्रातिलोम्य-गुणा( रा-आ )

श्रित- -त: वाध १८, ७.

ःप्रतिलोम-क-धर्म- -र्माणाम् वाध  
१, ११<sup>o</sup>.

प्रतिलोम-कृ(त>)ता- -तया हिपि  
११: ४.

प्रतिलोम-( ग>)गा<sup>l</sup>- -गा: अप  
५८<sup>r</sup>, ४, १३; ६४, ६, ६.

प्रतिलोम-प्रतिकृति- -त्या अप १,  
३२, १०.

प्रतिलोमा( म-अ )तुलोम- -मानि  
काश्रौ २४, २, १७.

प्रतिलोमा( म-अ )न्तराल-त्राय-  
-त्यानाम् वैध २, १५, ९.

√प्रतिलोमि, प्रतिलोमयेत् अप ३४,  
१, १.

प्रतिलोमै( म-ए )कान्तरा( रा-अ )  
वस्कन्दन<sup>s</sup>- -ने शंघ ३३०.

प्रति-लोम( न् > )नी<sup>h</sup>- -नी अप  
५८<sup>r</sup>, ४, ६.

प्रति√वच्, षप्रतिवोचासि आश्रौ १०,  
९, २; शांश्रौ १६, ६, १; लाश्रौ  
९, १०, ११.

प्रत्युवाच शांश्रौ १५, १७, १;

वौश्रौ १६, २७: २४××; अप;

प्रत्युञ्जु: वौश्रौ १८, ४८: १३;

वृदे ६, २१; या २, २५.

प्रति-वचन्- -क्ता वौघ १, १, ९.

प्रति-वचन<sup>l</sup>- -न: आपश्रौ ८, ३,

१४; १२, २४, १५××; भाश्रौ;

-नम् आपश्रौ ११, १२, ४; वौश्रौ;

या ६, १५; -नाय वौश्रौ १८,

२६: २२; -ने वैश्रौ ८, ७: १३.

प्रति-वाक्य<sup>l</sup>- -क्यम् वृदे १, ३७; ५०.

प्रति-वाचक- -कान् वैघ १, ६: ३.

प्रत्यु(ति-उ)क्त- -क्त: आश्रौ ५, १,

१४; शांश्रौ ६, ७, १०; या १,

१४; -क्ते हिश्रौ १४, १, २८.

प्रत्यु(ति-उ)क्त्वा आपश्रौ १२, ६,

५××; वैश्रौ.

प्रत्यु(ति-उ)च्य हिश्रौ १, ३, ४०.

प्रति-वत्- -वन्ति माश्रौ ३, ७, ४.

प्रति-वत्सर<sup>k</sup>- -रम् विघ २१, २२.

प्रति√वद्, प्रतिवदेत् अप १, ३६, ६.

प्रति-वदत्- -दत: वैघ २, २: २१.

प्रति-वादयत्- -यन् आपश्रौ २१,

१८, १२; हिश्रौ १६, ६, २०.

प्रति-वादिन्- -दिन: विघ ८, ११.

प्रति√वप्, प्रतिवपति भागृ २, २८:

३; प्रतिवपेत् आश्रौ ३, १०,

१४.

प्रति-वर<sup>k</sup>- -रम् वाधूश्रौ ४, ९४:

७××; हिश्रौ १७, ६, २८.

प्रति-वर्ग<sup>k</sup>- -र्गम् काश्रौ ९, ४, १८.

प्रति-वर्ण<sup>k</sup>- -र्णम् गौघ १२, १३;

पावा १, ४, १०९; पाप्रवा ५,

१४.

प्रति-वपटकार<sup>k</sup>- -रम् आश्रौ ५, ५,

२२; काश्रौ ४, ४, १३××; माश्रौ.

प्रति√वस्(आच्छादने)>प्रतिवसन-

>नीय- -यम् वौश्रौ १२, ४:

१०; -ये वौश्रौ ५, ९: १६××.

प्रति√वह् > प्र(ति>) ती-वाह-

-ह: कौस् ७९, २९.

प्रत्यु(ति-उ)ह्य शांश्रौ २, ८, १५;

काश्रौ; लाश्रौ ३, ३, ३<sup>l</sup>.

ःप्रत्यु(ति-ऊ)ढ, ढा- -ढम् आपश्रौ

६, ६, १०; भाश्रौ ६, १०, ११;

माश्रौ; -ढा: आपश्रौ ६, ६, १०;

माश्रौ १, ६, १, २२; वाश्रौ.

प्रत्युढ-सुरी(प>)षाम<sup>m</sup>- -षया

वौश्रौ १०, ४८: २.

प्रति-चात<sup>k</sup>- -तम् काश्रौ २५, १०,

२३; वाश्रौ ३, ४, ५, १९;

आपध १, ३०, २०; हिघ १, ८,

१७.

प्रति-वादयत्-, षदिन्- प्रति√वद् द्र-

प्रति√वाश्, प्रतिवाश्येत् लाश्रौ ९,

a) = जाति-विशेष-। b) क्वचिद् वा. क्विचि.। c) बहु. <प्रातिलोमि-। d) = प्रतिलोम-जातिका-।

स्त्री. ङीप् प्र.(पा ४, १, ६३)। e) कृष्णपण्डितमनुसरतः Bpsh. यनि. पाठः ? (तु. केचन मूको. °धर्माणः इति)।

f) उप. < √गम्। g) षस. >सस.। h) प्रास. समासान्ताऽभावः उसं. (पा ५, ४, ७५)।

i) भाप., नाप. (मन्त्र-)। j) = प्रति-वचन-। k) अष.। l) सपा. द्राश्रौ ७, ३, ३, प्रत्युह्य इति पाभे.। m) वस.।

८, १६.  
 प्रति-वि/कृ, प्रतिविकुर्वोरन् वौश्रौ  
 २३, १८ : १७.  
 प्रति-वि/क्रम् > प्रतिवि-क्रम्य हिश्रौ  
 ७, ५, १२.  
 प्रति/विद् (ज्ञाने), ऋप्रति...वेत्तु  
 आपश्रौ १, २०, ६; वौश्रौ १, ६ :  
 १४ x x; भाश्रौ; ऋप्रति (वेत्तु)  
 काश्रौ २, ४, ५, १७; शुश्र १, ५९.  
 प्रतिवेदयते भाग् ३, १२ : ११;  
 प्रतिवेदयन्ति अप ७०<sup>३</sup>, ११, ८;  
 १३; १८-२०; ऋप्रतिवेदयामः<sup>३</sup>  
 आमिग् २, ४, ४ : १४; वौध ३,  
 ७, ११; ऋप्रतिवेदय<sup>३</sup> माश्रौ १, ८,  
 ३, १; वाश्रौ १, ६, ४, १;  
 प्रतिवेदयाम कौसु ४२, १७<sup>३</sup>.  
 प्रति-वेदन-ने अप ४८, ५२.  
 प्रति/विद् (लाभे) > प्रति-वित्त-  
 -त्ताः माश्रौ २, ३, ७, ३<sup>३</sup>.  
 प्रति-विद्य<sup>३</sup> -द्यम् गौध १६, ५०.  
 प्रति/विध् (= √व्यध्), प्रति-  
 विध्यामि माग् १, ११, ९<sup>३</sup>.  
 प्रति-वि/धा > प्रतिवि-धान- >  
 ण-कुशल-लः शंश २४४.  
 प्रति-वि-परी (रि/इ), प्रति-  
 विपर्यन्ति<sup>३</sup> काश्रौ ५, ९, २.  
 प्रति-वि/भञ्ज् > प्रतिवि-भञ्ज्य काश्रौ  
 ४, १०, १२; १३, ४, १४; आपश्रौ.  
 प्रतिवि-भाग-गः काश्रौ १०, २,  
 २३; -गात् काश्रौ २, ७, ११.  
 प्रतिवि-भाग-शंस(ः) देवि २, १.  
 प्रति-वि/भू, प्रतिविभवन्ति निसू

२, ३; ३३; प्रतिव्यभविष्यत् निसू  
 २, ३ : ३०.  
 प्रति-वि/वद्, प्रतिविवदेत् आपश्रौ  
 १०, २७, ६.  
 प्रति-वि/शिप् > प्रतिवि-शेष- -षः  
 शुप्रा ८, ५०.  
 प्रति-वि/श्वस्, प्रतिविश्वसन्तु काग्  
 ९, १०<sup>३</sup>.  
 प्रति/विप् > प्रति-वेपण- -णम्  
 आमिग् २, ७, ९; ५.  
 प्रति/वी, प्रति...व्यन्तु अप्राय ६,  
 १<sup>३</sup>.  
 प्रति-वी ( वि/ई ) क्ष्, प्रतिवीक्षेत  
 द्राश्रौ ६, १, १७; लाश्रौ २, ९, १४.  
 प्रति-वृत्ति<sup>३</sup> -त्ति ऋप्रा १३, ४८.  
 प्रति-वेद्<sup>३</sup> -द्म् पाग् २, ५, १४; शंश  
 ३९; वौध १, १, १; २, २.  
 प्रति L, ती<sup>३</sup> ज-वेश, शा<sup>३</sup> - पावाग ६,  
 ३, १२१; -शः माश्रौ १, ७, ५,  
 २७; लाश्रौ ८, २, १२; वौग् २,  
 ६, १४<sup>३</sup>; -शम् आपश्रौ ८,  
 १०, १०<sup>३</sup>; वौश्रौ ५, १० : १६<sup>३</sup>;  
 २४, ३२ : ७<sup>३</sup>; भाश्रौ ८, ११,  
 १६<sup>३</sup>; वाश्रौ १, ७, ३; १५<sup>३</sup>;  
 वैश्रौ ९, २ : ९<sup>३</sup>; हिश्रौ ५, ३,  
 १०<sup>३</sup>; वौपि १, १२ : २<sup>३</sup>; -शस्य  
 वौश्रौ २१, ३ : २९<sup>३</sup>; -ऋशाः  
 आश्रौ २, ५, ९; आंश्रौ; -शात्  
 भाश्रौ ८, १२, १७<sup>३</sup>; -शानि  
 वाधुश्रौ ३, ७५ : १२; -शाम्  
 वाधुश्रौ ३, २० : ७; द्राश्रौ ३, २,  
 १८; लाश्रौ १, १०, १३.

प्रतिवेश्य<sup>३</sup> - > श्य-ब्राह्मण-  
 -णे विध ५, ९४.  
 प्रतिवेश-पक्व<sup>३</sup> -क्वस्य हिश्रौ ५,  
 ३, २८; -क्वम् वैश्रौ ९, ३ : १.  
 प्रति/वेष्ट्, प्रतिवेष्टयन्ति वौश्रौ १४,  
 १८ : ५<sup>३</sup>.  
 प्रति-वेष्टमान- -नाः वौश्रौ १४, १८ :  
 ५<sup>३</sup>.  
 प्रति-वेष्टित- -त्तम् शौच १, २२.  
 प्रति-वेष्ट्य शुप्रा १, ७८; तैप्रा २,  
 ३७.  
 प्रति-वैष्टम्<sup>३</sup> -म्भम् निसू ६, ९; ५.  
 प्रति-व्यू ( वि/ऊ ) ह्, प्रतिव्यूहामः  
 वौश्रौ २६, १५ : १.  
 प्रतिव्यू(वि-ऊ)ह- -हम् वौश्रौ २६,  
 १५ : २.  
 प्रति/व्ये > प्रति-वीत- > ण-त  
 (म >) मा- -मया वैताश्रौ २२,  
 १२.  
 प्रति-शब्द<sup>३</sup> -द्म् मीसू ९, २, १७.  
 प्रति-शाक- (> प्रातिशाक्य-पावा.)  
 पावाग ४, ३, ५८<sup>३</sup>.  
 प्रति-शाख<sup>३</sup> - (> प्रातिशाख्य-  
 पावा.) पावाग ४, ३, ५८<sup>३</sup>.  
 प्रातिशाख्या (ख्य-आ) दि-  
 शास्त्र-ज्ञ-ज्ञः कौशिपु ७.  
 प्रति-शिरस्<sup>३</sup> -रः काश्रौ १७, ५, ७.  
 प्रति-शिल्प<sup>३</sup> -त्वानि शाश्रौ १२,  
 ७, ४.  
 प्रति/शी > प्रति-शीव(र >) शी<sup>३</sup>-  
 -रि हिपि १ : १६<sup>३</sup>.  
 ?प्रतिशुक्ल माशि १३, ७.

a) पाभे. वैप १, २१५५ b द्रं. । b) पाभे. वैप १, २१४१ s द्रं. । c) अस. उप. = विद्या- ।  
 d) नैप्र. <परियन्ति । पाप्र. पूर्व धातोश्चसंगेण योग इति । e) सपा. प्रतिविश्वसन्तु <> प्रतिश्वसन्तु इति  
 पाभे. । f) पाभे. वैप १, २१५५ j द्रं. । g) अस. । h) द्राश्रौ. लाश्रौ. पाठः । i) वैप १ द्रं. । j) = (उप-  
 चारात्) श्रोदन- (तु. र्ददत्तः) । k) वा. क्वि. । = समीप- । l) तात्रभक्तिः व्यः प्र. उसं. (पावा ४, ३, ५८) ।  
 m) पूषः = (आह्वनियगाहूपत्य-प्रातिवेश्यात्) दक्षिणामि- (तु. र्ददत्तः [ आपश्रौ ८, १०, १० ] ) । n) उप.  
 = सान-विशेष- । o) परस्परं पाभे. । p) तु. पाति. । q) प्रास. ।

प्रति√शुच् (दीर्घ), प्रतिशोच  
 आपथौ ६, २१, ११.  
 प्रति√शुप् > प्रतिशुक्- > ष्का  
 (ष्क-अ)प्र- -अम् जेश्रौ २ :  
 ४४४.  
 प्रति√श्रु, श्रु( श्रवणे )<sup>b</sup>, प्रतिश्रुणोति  
 शांश्रौ ५, १, १०; १०, १३,  
 २७४४; अश्र ९, ६(६)†; प्रति-  
 श्रुणुयात् पाठ २, ५, २९.  
 प्रतिश्रावयति वाश्रौ ३, ३, ३,  
 २५.  
 १ प्रतिश्रवण- -अम् गौध २, ३१;  
 -णे पा ८, २, ९९.  
 प्रतिश्रुत्- पावाग ३, ३, १०८<sup>d</sup>.  
 प्रातिश्रुक्- -कानि तैप्रा  
 २, ३.  
 प्रातिश्रुत्-(क>)का- -कायै  
 भाशि १९.  
 प्रतिश्रुत- -तस्य विध ५, १७८;  
 -ते कौश्र १, ३, १; ६, १; शांश्रु  
 १, ७, १; ९, १९.  
 प्रातिश्रुता (त-आ) दि- -द्विपु  
 शांश्रु ५, १०, ३.  
 प्रातिश्रुति- -ति: वैताश्रौ ४३, ४७;  
 अप १, ५०, १०<sup>२</sup>.  
 प्रातिश्रुत्य गौध ५, २४.  
 प्रति√श्रु, श्रु ( हिंसायाम् ), प्रति-  
 श्रुणाति आपथौ ३, ६, १०; वौश्रौ  
 १, १९:२५; माश्रौ ३, ६, २;  
 †प्रति... श्रुणोहि या ४, १९<sup>१</sup>; ६,  
 ३; प्रति (श्रुणाहि) साश्र १,  
 ९५†.  
 प्रातिश्रीयंते आपथौ १८, १५, ४.  
 प्रातिशोच- -अम् हिश्रौ ८, ७, ४०;

प्रति-शौच- -अम् वौध १, ४, १५<sup>d</sup>.  
 प्रति√श्र्ये > प्रति-शीन-, 'नवत्-  
 पा ६, १, २५.  
 प्रति√श्रम्, प्रतिश्रमेत् आमिष्ट २, ७,  
 ६:१३.  
 २ प्रतिश्रवण- पा ६, २, १९३.  
 प्रति√श्रि > प्रतिश्रय<sup>१</sup>- -अम् विध  
 ६७, ४६; -ये अप ४०, १, ७.  
 प्रति√श्रस्, †प्रतिश्रसन्तु<sup>१</sup> माश्रु १,  
 ४, ९; वाश्रु ८, ७.  
 प्राति√ष (<स)ञ्ज्, प्रातिपजेत लाश्रौ  
 १०, २०, २.  
 प्रातिपज्य वौश्रौ १२, १४: ८.  
 प्राति√ष (<स)द् > प्रातिपादन- -ने  
 वौश्रौ १७, ४६: ३.  
 प्रातिपाण्मास- -सम् वैश्रौ १०,  
 १: २<sup>k</sup>.  
 प्राति√षि (<सि)च्, ङ्च्, प्रातिपि-  
 ङ्चति आपथौ ६, ६, ७; १५, ३; ५;  
 ६; हिश्रौ ३, ७, ३१; प्रातिपिञ्चत्  
 कौश्रु ६८, ६; ८; ९.  
 प्रातिपिञ्च्यात् आश्रौ २, ३, ५.  
 प्रातिपिक्त, क्ता- -क्तम् आपथौ ६,  
 १५, ६; हिश्रौ ३, ७, ३२; -†क्ता:  
 आपथौ ६, २०, २<sup>३</sup>; माश्रौ.  
 प्रातिपिच्य आपथौ ६, २०, २.  
 प्रातिपिच्य<sup>१</sup>- -च्यम् आपथौ ६, ६,  
 ३; हिश्रौ ३, ७, ३२<sup>२</sup>.  
 प्रातिपेक- > ष्क काल- -ले वैश्रौ  
 २, ९: ५.  
 प्रातिपेकम् आपथौ ६, १५, २;  
 हिश्रौ ३, ७, ११५.  
 प्रातिपेचन- -नात् हिश्रौ ३, ७,  
 ११४.

प्राति√षि (<सि)घ्, प्रातिपेधते माशि  
 १२, १; प्रातिपेधति वृदे ७, १३;  
 या १, २<sup>३</sup>; ४; मीसू ३, ५, २३;  
 प्रातिपेधन्ति याशि १, ७५; प्राति-  
 पेधेत् आपथ १, ८, २०<sup>m</sup>.  
 प्रातिपिधयते वैध ४, ८, ६; वृदे  
 ४, १११४४; प्रातिपिधयेत हिश्रौ  
 ३, ८, ४५; या २, १४.  
 प्रातिपेधयति वौश्रौ २६, ३०:  
 १५; १७; प्रातिपेधयन्ति वौश्रौ  
 २४, १४: ११; आपथ १, २८,  
 ३; हिध १, ७, ३९; प्रातिपेधयेत्  
 आश्रु ४, ८, ३३; हिध १, २,  
 १०८<sup>m</sup>.  
 प्रातिपिद्, द्वा- -द्दः शंघ ३०३;  
 मीसू ६, ५, ४२<sup>m</sup>; -द्दम् काश्रौ  
 १, ६, ८; माश्रौ; या २, १४;  
 -द्दस्य पावा ७, २, ३७; मीसू  
 १०, ३, ७१; -द्दा या २, ११;  
 -द्दा: वाश्रौ १, ६, ३, २६; -द्दान्  
 वौध ४, २, ९; -द्दानाम् आपथ  
 १, ३१, १४; हिध १, ६, ४४;  
 मीसू ६, २, २१; -द्दानि आपथौ  
 ५, १६, ७; माश्रौ; -द्दे आपथौ  
 २४, २, ३८; काठश्रौ; -द्देन  
 शौच ४, ५६; -द्देभ्यः हिश्रौ  
 ३, १, २२; -द्दौ हिश्रौ ३, ४,  
 ४४; निसू ५, ५: ८.  
 प्रातिपिद्-त्वं- -त्वात् पावा ३, ३,  
 १३; ४, १, ७४४; मीसू.  
 प्रातिपिद्-भोजन- -ने सुध  
 २३.  
 प्रातिपिद्-मन्त्रयोग<sup>o</sup>- -ने गौध  
 २२, ३५.

a) वस. । b) पा १, ३, ५९; ४, ४० परामृष्टः द्र. । c) वैप १ द्र. । d) तु. पागम. । e) तदद्वैतीयम्  
 ङ्क् > कः प्र. (पा ५, १, ६३; ७, ३, ५१) । f) पाभे. वैप १, २१५६. ० द्र. । g) अस. । h) ष्व जलान्तरेण इति मैसू. ।  
 i) उप. अधिकरणे प्र. । j) पाभे. पृ १६८२ ० द्र. । k) षण्मासम् इति संस्कर्तुः टि. । l) च्यप् प्र. उर्स.  
 (पा ३, १, १०९) । m) परस्परं पाभे. । n) षेधात् इति जीसं. प्रमृ. । o) पूष. = अन्नधिकारिन्. ।

प्रतिषिद्ध-वर्जम् बौध २,६,१७;  
 गौघ ३,२०; ५,२.  
 प्रतिषिद्ध-वाङ्मनस्- नसोः  
 गौघ २५,१२.  
 प्रतिषिद्ध-विज्ञान- नात् मीसू  
 १०,८,४४.  
 प्रतिषिद्ध-सेवन- नन् गौघ  
 १९,३.  
 प्रतिषिद्ध-सेवा- चायाम् गौघ  
 १२,२४.  
 प्रतिषिद्धा(द्ध-ञ्)र्थ- र्थम्  
 पावा ६,३,४१.  
 प्रति-पिघ्य आपश्चौ ८,१५,१२; वैश्रौ.  
 प्रति-पेघ- -घः शांश्रौ ९, १, ४;  
 आपश्चौ २४, १२, ४; हिश्रौ;  
 -घम् पावा ८, १, ५१; -घयोः  
 पा ३, ४, १८<sup>१</sup>; -घस्य अप  
 ४८, १२६; पावा ५, १, २०; ७,  
 २, १०; ६३; मीसू १०, ७, ४२;  
 -घात् आपश्चौ २४, ४, १; २;  
 अप्रा; -घे वृद्धे २, ९२; या १,  
 ५; शुप्रा; -घेन भाश्रौ ६, १५,  
 ६; -घेषु मीसू ६, २, २१.  
 प्रतिपेघ-प्रसङ्ग- ङ्गः पावा ६,  
 ४, ५२; ७, २, ६२.  
 प्रतिपेघ-वचन- नात् पावा ८,  
 १, ५५.  
 प्रतिपेघ-वत् मीसू १०, ७, ४०.  
 प्रतिपेघ-विषय- यात् पावा १,  
 १, ४४.  
 प्रतिपेघ-व्यवहित- न्तः या ९,  
 १०.  
 प्रतिपेघ-संज्ञा-करण- णात्  
 पावा ३, १, ४४.

प्रतिपेघ-संनियुक्त-वचन- नन्  
 पावा ७, २, ३.  
 प्रतिपेघ-संप्रत्यय- न्यः पावा १,  
 १, ४४.  
 प्रतिपेघ-सामर्थ्य- -ध्यात् पावा  
 ७, ३, ८५.  
 प्रतिपेघा (घ-ञ्) धिकार- -रे  
 पावा ८, १, ५५; ४, ३२.  
 प्रतिपेघा(घ-आ)नर्थक्य- -न्यम्  
 पावा २, २, १४; ३, ३, १५१××.  
 प्रतिपेघा(घ-अ)र्थ- -र्थः पाप्रवा  
 ५, १६; -र्थम् पावा २, ३, ८××.  
 प्रतिपेघा ( घ-ञ् ) र्थ<sup>१</sup> >  
 र्थीय- -यः या १, ४.  
 प्रतिपेघो(घ-उ)पदेश- -शौ वृद्धे  
 १, ३८; ५२.  
 प्रति-पेघक- -कः तैप्रा २२, ८.  
 प्रति-पेघन- -ने लुघव ८७ : ३.  
 प्रति-पेघ्य- -ध्यम् पावा २, २, १४.  
 प्रति√पि(<सि)घ्, प्रतिपीव्यति  
 माश्रौ २, २, २, ३५; ३, ३१;  
 प्रतिपीव्येत् आपश्चौ १०, ८, १३;  
 १४; काठश्रौ.  
 प्रति-पीव्य माश्रौ २, २, २, ३५; ३, ३१  
 प्रति-धीव्य- पा ३, १, १२३.  
 प्रति-पेक-, कन्, पेचन- प्रति  
 √पिघ् द्र.  
 प्रति-प् (<म्) √कश् (गतिशा-  
 सनयोः) > ष्-कश्- -शः पा  
 ६, १, १५२.  
 प्रति-प् (<न्) √कृ (विक्षेपे) > ष्-  
 किरत्- नन् द्राघ ४, ४, ४.  
 प्र-तिष्टमा(न>)ता- प्र√स्था द्र.  
 प्रति√ष्ठा (<स्था), प्रतितिष्ठति

शांश्रौ १५, ४, ४; १६, २२, १३;  
 आपश्चौ; कौघ ३, २, ६<sup>१</sup>;  
 ङप्रति...तिष्ठति बौश्रौ १४, २ :  
 ९××; वाघुश्रौ ४, १५ : १० :  
 ९० : १९; ङप्रति(तिष्ठति) भाशि  
 ८५; प्रति...प्रतितिष्ठति शांश्रौ  
 १०, १८, ८; प्रतितिष्ठन्ते वाघुश्रौ  
 ४, ५१ : ४; प्रतितिष्ठन्ति  
 आपश्चौ २२, १५, १××; बौश्रौ;  
 प्रति...प्रतितिष्ठन्ति शांश्रौ १०,  
 १८, ८; ङप्रतितिष्ठामि आपश्चौ  
 ९, १४, २<sup>३</sup>; १९, १०, २; बौश्रौ;  
 ङप्रति(तिष्ठामि) काश्रौ १९, ४,  
 २३; आपश्चौ ९, १४, २<sup>३</sup>××;  
 बौश्रौ; प्रतितिष्ठामि कौसू ९८, २<sup>१</sup>;  
 प्रतितिष्ठन् आपमं २, ११, १६<sup>१</sup>;  
 प्रतितिष्ठस्व कौघ ३, ३, १<sup>१</sup>;  
 ङप्रतितिष्ठ, > ष्टा आपश्चौ २,  
 ११, १<sup>१</sup>; ७, ६, ७<sup>६</sup>; ९, १८, १;  
 बौश्रौ १, १४ : ५<sup>१</sup>; ४, ३ :  
 १६<sup>६</sup>; ६, २८ : ४४<sup>६</sup>; ७, १ :  
 २३<sup>६</sup>; २० : ४<sup>६</sup>; माश्रौ २, १०,  
 ४<sup>६</sup>; ७, ५, ४<sup>६</sup>; नाश्रौ; वैश्रौ  
 १०, ६ : ३<sup>६</sup>; १४, ९ : ९<sup>६</sup>; हिश्रौ  
 १, ८, २५<sup>६</sup>; ४, २, १७<sup>६</sup>; शांघ ३,  
 ३, १<sup>६</sup>; प्रतितिष्ठाम वाघुश्रौ  
 ३, ३९ : २२; प्रत्यतिष्ठत् शांश्रौ  
 १४, ९, १; ७४, १; बौश्रौ १८,  
 ३४ : ७××; प्रत्यतिष्ठताम् शांश्रौ  
 १४, ४२, १८; प्रतितिष्ठेत् आपघ  
 १, २४, १४; हिघ १, ६, ६३;  
 प्रतितिष्ठेत् आपश्चौ १७, २४, ८;  
 २२, ४, २७<sup>१</sup>; बौश्रौ १८, ३४ :  
 ५××; हिश्रौ १२, ७, २१<sup>१</sup>.

a) = प्रतिपेघ-वाचिन्- । b) कञ् । c) = पुरोयाचिन्- । d) सपा. ण्तिष्ठति <> ण्तिष्ठ इति पाभे ।  
 e) पाभे. वैप १, १८८७b द्र. । f) सपा. ण्तिष्ठ (तैप्रा ३, ७, ५, ३ च) <> ण्तिष्ठ इति पाभे । g) सपा. प्रतिविष्ट  
 (तैप्रा २, ५, ८, १२ च) <> प्रति...ष्ठा इति पाभे. । h) प्रतिष्ठेत् इति पाठः ? यनि. शोचः (तु. सपा. आपश्चौ  
 १७, २४, c) ।

प्रतितस्यौ वौश्रौ १८, ४७:११;  
प्रतिघास्यति माश्रौ ६, २, ५,  
२४; ङप्रत्यघात् आपश्रौ ७, ६,  
७; माश्रौ ७, ५, ५; वाधूश्रौ ३,  
१९:१६; वाश्रौ १, ६, २, ४;  
हिश्रौ ४, २, १७; प्रति...घात्  
माश्रौ १, ७, ३, ४२ऱं; प्रति...  
अस्युः भाग्य १, २७:६ऱं.

प्रतिघापयते आपश्रौ १८, ६, १;  
१९, १३, २४; हिश्रौ १३, २, १५;  
२३, २, ५०; प्रतिघापयति शाश्रौ  
१७, १६, ५; आपश्रौ २, ११, १;  
६, २, १××; वौश्रौ; या १४, ३०;  
प्रति...स्थापयति, प्रति<sup>३</sup>(स्थाप-  
यति) वौश्रौ १४, २:२७ऱं; प्रति-  
घापयत्तः वैश्रौ ८, ९:११; प्रतिघा-  
पयन्ति शाश्रौ १६, १०, १६; भाशि  
७०; प्रतिघापयामि वैग्य ४, ११:  
१३; ङप्रतिघापय भाश्रौ ३, ११,  
१; हिश्रौ २, ६, ६; प्रतिघापयानि  
वौश्रौ १८, ३३:१४ऱं; प्रति-  
घापयेत् वौश्रौ २७, १:३; २९,  
१३:२; वैश्रौ; प्रतिघियेत् आम्रिय  
२, ४, ७:५:१६.

प्रति...अतिष्ठिपन् माश्रौ १, ४,  
१, २६ऱं; प्रत्यतिष्ठिपम् वाधूश्रौ  
४, ६:४.

प्रति-तिष्ठत्- -ष्ठन् माश्रौ १, २, ६,  
२२ऱं; द्राग्य ४, ४, ५; -ष्ठन्तः  
आश्रौ ११, ४, ८; १२, ९, १६;  
वौश्रौ १६, ११:४; -ऱंष्ठन्तम्  
गोग्य ४, ६, ११; द्राग्य ४, १, २५.

प्रति-तिष्ठमान- -नः गोग्य ४, १०, २.

प्रति-ष्ठा<sup>०</sup>- -ष्ठयोः हिपि ६:६<sup>०</sup>;  
-ष्ठा आश्रौ ५, ७, ५ऱं; शाश्रौ  
६, ३, ८ऱं××; १७, १३, ५ऱं;  
काश्रौ; कौस् १३७, २८ऱं; अप  
४८, ६७ऱं; ऋश्र १, ४, ८<sup>१</sup>; शुश्र  
५, २१<sup>१</sup>; अश्र ६, १६<sup>१</sup>; निघ ३,  
२ऱं; या १४, १०; ऋप्रा १७,  
५<sup>१</sup>; पिं ३, १५<sup>१</sup>; उनिस् १:  
१२<sup>१</sup>; -ष्ठाः कौस् २०, ७ऱं;  
-ष्ठास् शाश्रौ १४, ५; आपश्रौ;  
माश्रौ १, ४, ३, १<sup>२</sup>ऱं;  
वाश्रौ १, १, ४, ९<sup>३</sup>ऱं; -ष्ठायाः  
वौश्रौ १४, २:१४; अप १९,  
१, २; -ष्ठायास् शाश्रौ २, ११,  
६ऱं; ४, १०, ३ऱं; १६, २२, १३;  
पा ६, १, १४६<sup>१</sup>; -ष्ठायै शाश्रौ  
१, ५, ९××ऱं; काश्रौ; -ष्ठे शाश्रौ  
१६, २०, २; आपमं; अप ४८,  
६०ऱं.

प्रतिष्ठा-काम- -मः आश्रौ १०,  
३, १; शाश्रौ १४, ९, १××; आपश्रौ;  
-मम् वाधूश्रौ ४, ९०:१७;  
९०<sup>२</sup>:८; -मस्य शाश्रौ १४, ११,  
१××; काश्रौ; -माः आश्रौ ११,  
२, ३; ८××; आपश्रौ; -मानाम्  
आश्रौ ११, ३, १××; काश्रौ.

प्रतिष्ठाकाम-यज्ञ<sup>३</sup>- -ज्ञः  
निस् ९, १:१.

प्रतिष्ठाकाम-सत्र- -त्रम्  
निस् १०, ४:१४; -त्रे निस्  
१०, ३:१०.

प्रतिष्ठा(घा-अ)र्थ- -र्थः निस् ४,  
९:४; १३.

प्रतिष्ठा-वत्- -वान् हिश्रौ ६,  
४, १ऱं.

प्रतिष्ठा-वि(घा>)घ<sup>०</sup>- >  
°घ-तरम् निस् ६, ८:२७.

प्रतिष्ठा-शील- -लम् या १४,  
१०.

प्रतिष्ठा-स्तोम- -मम् निस् ७,  
६:१८.

प्रतिष्ठो(घा-उ)क्त- -क्तः निस्  
४, ९:२७.

ङप्रति-ष्ठान<sup>३</sup>- -नम्<sup>३</sup> आपश्रौ १६,  
३३, ५<sup>२</sup>; वैश्रौ १८, २१:२४<sup>२</sup>;  
हिश्रौ ११, ८, ३<sup>३</sup>; पाग्य ३, १५,  
२३; -ऱंनौ अप १, ४१, ४, ५;  
अशां ११, ४, ५.

प्रति-ष्ठान- -नम् माश्रौ ४, १, १९;  
-नेन विघ २३, ३४.

प्रति-ष्ठानम् जैश्रौ ५:८; २१:९.

प्रति-ष्ठापयत्- -यत् वौश्रौ २०,  
२०:४.

प्रति-ष्ठाप्य आश्रौ ८, १४, १२;  
आपश्रौ.

प्रति-ष्ठाप्य- -स्यम् निस् २, १०:  
८; ३, ४:६.

प्रति-ष्ठाय निस् ९, ९:२४; अप.

प्रति-ष्ठित, ता- -तः ङवौश्रौ १७,  
३८:४, ६; ७××; वाधूश्रौ;

-तम् आपश्रौ ६, ३०, १;  
१५, १०, १०; वौश्रौ; -ता

आपश्रौ ९, १५, २१; १४, ३३,

a) पामे. पृ १६८४ g द्र. । b) पामे. पृ १६८४ f द्र. । c) भाप. विप. नाप. च । वैप १ द्र. ।

d) = [शरीरावयव-विशेष-] श्रोणि- [तु. पामे.] । e) सप्र. वौपि १, ६:६ श्रोण्योः इति पामे. । f) पामे. वैप २,

३खं. प्रतिघा ऐआ ५, १, २ टि. द्र. । g) पामे. वैप १, २०४३ p द्र. । h) = हस्- । i) = छन्दो-विशेष- ।

j) विप. (वैप १, २१५८ g द्र.) । k) सङ्घत् पामे. पृ १५५३ & द्र., अन्यत्र प्रतिघाम् गमेयम् <> प्रतिघावान्

मूयासम् इति पामे. । l) = स्थान- । m) = द्वावापृथिवी- । n) नाप. । o) वस. । p) उप. भावादर्थे

प्र. । q) = शरीरावयव- ।

२१; वाधुश्रौ; -ता: अप ८, १, ६; २२, ६, ४; विध २३, ५७; शौच ४, १०५; -तानि माश्रौ ६, १, ७, २८; छुम् ३, २: ४; -तान् वौश्रौ २, १८: १६१; माश्रौ ९, १८, ८; आमिष्ट; -तायाम् आपश्रौ २, ७, ३; माश्रौ २, ७, ९; वैश्रौ ५, ४: १५; हिश्रौ १, ७, ४६; -ते आपश्रौ १, ७, १०; वाधुश्रौ; -तेऽन्ते वैश्रौ ५:८; २१:९; -तौ विध ५२, १६; या १४, ३०.  
 प्रति-ष्ठिति- ऋति: आपश्रौ ५, १८, २; हिश्रौ ६, ५, १६; -ऋत्या: वौश्रौ १३, १०: ४; १४, २: १४; -त्ये शाश्रौ १५, १, ४०xx; वौश्रौ.  
 प्रति√ष्णा( <स्ना) > प्रति-ष्ण- > प्रति(ष्ण-क) > ष्णिक-<sup>३</sup>- पाग ८, ३, ९८.  
 प्रति-ष्णात् - तम् पा ८, ३, ९०.  
 प्रति√पु( <स्फु)इ, प्रतिष्फुर ऋषा ५, १७१.  
 १प्रति-संवत्सर<sup>३</sup>- रम् वैश्रौ १०, १: १; अप १७, १, १; वैध १, ५, ३.  
 २प्रति-संवत्सर<sup>३</sup>- -रान्<sup>d</sup> पाग १, ३, २; दाय ४, ४, २५.  
 प्रति-सं√चद् > प्रति-सं-वादिन्-  
 -दिनम् हिश्रु १, १५, ६१<sup>e</sup>.

प्रति-सं√वस् ( निवासे ), प्रति-सं-व-  
 लीत् वौश्रौ २४, १२: १४.  
 प्रति-सं√विश्व, प्रति-सं-विश्वि आमिष्ट  
 १, ६, ३: ६६; प्रति-सं-विश्वेत्  
 वाध १२, ४६; गौध.  
 १प्रति-संस्कार<sup>३</sup>- रम् आपश्रौ १४,  
 ५, ४; हिश्रौ ९, ८, २.  
 प्रति-सं-स्√कृ > २प्रति-संस्कार<sup>१</sup>-  
 -र: शंघ ३२७.  
 प्रति-संस्तुत<sup>३</sup>- -तम् काश्रौ ५, ५, ७.  
 प्रति-सं-हिता- प्रति-सं√धा द्र.  
 प्रति-सं√हृ, प्रति-सं-हरेत् आपध १,  
 ८, ७; हिध १, २, ९५.  
 प्रति-सं-हार- -रे वैश्रु ५, १: १७.  
 प्रति-सं-हृत्य अप १३, ३, ३.  
 प्रति-सं√ख्या > प्रति-सं-ख्याय काश्रौ  
 २५, ४, १४; आपश्रौ ९, १५,  
 १४<sup>३</sup>xx; वौश्रौ.  
 प्रति-सं-ख्यायम् वौश्रौ २७, १३:  
 १०६.  
 प्रति-सं√चर्, प्रति-सं-चरेत् काठश्रौ  
 ९९.  
 प्रति-सदृश्<sup>३</sup>- -श्च शंघ ११६:  
 ५३<sup>३</sup>; -क्षास: शुषा ३, ८११.  
 प्रति-सदृश्<sup>३</sup>- -दृश् शुषा ३, ८११<sup>१</sup>.  
 ?प्रति-सं-घनीय<sup>३</sup>- -न्यम् आज्यो ८, ५.  
 प्रति-सं√धा, प्रति-सं-दध्यात् आश्रौ  
 १, २, १.  
 प्रति-सं-हि(त) > ता- -ताम् आपश्रु  
 १७, ६; हिश्रु ५, ४७.

प्रति-सं-नि√विश्व > प्रति-सं-नि-  
 विश्व- -या: अप ७०<sup>३</sup>, ११, २२.  
 प्रति-सम्√अस् ( क्षेपणे ), प्रति-  
 समत्यति आपश्रौ ११, ५, ७;  
 १८, ९, ५; माश्रौ १, २१, ३;  
 हिश्रौ १३, ३, २८.  
 प्रति-सम्-अस्य वौश्रौ २६, ३३: ५.  
 प्रति-सम्-आ√नी > प्रति-समा-नीय  
 आपश्रौ ७, १४, ८<sup>१</sup>.  
 प्रति-सम्√इष् > प्रति-सम्-इष्-  
 > नीय, या<sup>३</sup>- -न्यम् वौश्रौ  
 १०, २१: १५; वैश्रौ १८, १२:  
 २५; -याम् वौश्रौ २२, ३: १४.  
 प्रति-सम्√ईच्, प्रति-समीक्षते  
 जैश्रौ १९: १९.  
 प्रति-सम्√ऊह > प्रति-सम्-ऊह  
 वौश्रौ २३, ४: १०.  
 प्रति-सं√भक्ष, प्रति-सं-भक्षत: वैश्रौ  
 १५, ३५: ५.  
 प्रति-सं√मृज्, प्रति-सं-मार्ष्टि हिश्रौ  
 १३, १, २८.  
 प्रति-सवन्त<sup>३</sup>- -नम् काश्रौ २२, ९, ४.  
 प्रति-साम- पा ५, ४, ७५.  
 प्रति-सामिधेनि<sup>३</sup>- -नि वैश्रौ ६, १:  
 २.  
 प्रति-सामिधेनी<sup>३</sup>- -नो: हिश्रौ २, १,  
 ४<sup>०</sup>.  
 प्रति-साय<sup>३</sup>- -न्यम् गोग्रु ३, ५, ३२;  
 जैश्रु १, १९: २४; वौध २, ३,  
 ४३.

a) विप. > नाप. [(प्रतिष्णानकर्त्रो-) ली- (तु. न्यास; वाच., PIV.; वैतु. पागम. Lप्रति√ष्णा > अधिहरणे) प्रति-ष्णा-> यनि. Lद्रोणी-इति]]। b) अस्त.। c) विप.। प्रतिगत- (अभिगत- [अतिथिहरेण]) संवत्सरेण ( [अपवर्गे तु.] संवत्सरं समाप्येव ) इति कृत्वा प्राप्त. ( वैतु. WAG [२, १०२ d], Old. प्रथ. अस्त. [प्रतिवर्षम्] इति ? )। d) पाभे. पृ १५३० b द्र.। e) छन्दस्तः प्रतिवादिनम् इति संस्कृते: टि. शोषः। f) भाप.। g) सपा. ख्याय < > ख्यायम् इति पाभे.। h) वेंप १ द्र.। i) ऋषु २६९, ३२ अद्वयः इति। j) पाभे. वैप १, २१४७ n द्र.। k) प्रतिदधानीय- > छन्दस्तः यनि.। l) सप्र. हिश्रौ ४, ३, ३३ समानीय इति पाभे.। m) विप. > नाप.। n) प्रात.। o) सप्र. आपश्रौ २, १२, ६ परिधानीयायाम् इति पाभे.।

प्रति-साहस्र<sup>a</sup>- -ज्ञाणि आपथ्रौ १८,  
८, ६.

प्रति-सुत्वन्<sup>b</sup>- > प्रातिसुत्वन्-  
-नम् शांश्रौ १२, १८, २०.

प्रति-सूक्त<sup>d</sup>- -क्तम् वाश्रौ २, २, ५,  
२६; अत्र २, १९.

प्रति-सूर्य<sup>a, b</sup>- > <sup>०</sup>र्थ-क- -कः अप  
६५, २, ११; -कैः अप ६५, २, ३.

प्रतिसूर्य-मत्स्य<sup>c</sup>- -स्यः<sup>f</sup> हिध १,  
३, ८२.

प्रति√सु>प्रति-सर, रा<sup>b</sup>- पाग २,  
४, ३१<sup>६</sup>; -<sup>०</sup>रः कौस् १२, २२;  
३२, ७; अप; -रम् वैश्रौ १, ४,  
१३<sup>६</sup>; कौग १, ८, ८<sup>६</sup>; शांग १, १२,  
८<sup>६</sup>; हिपि १८ : २१<sup>६</sup>; अप; -रस्य

अशां २२, १<sup>६</sup>; -राः<sup>६</sup> हिपि १७:  
२०; अत्र २, १४४; -रान् वौग  
१, ८, ९<sup>६</sup>; -राम<sup>६</sup> वैग २, २:  
३×४; -रैः अप ३३, ६, १२.

प्रतिसर-दधि-मधु-घृत- -तम्  
माग २, १४, २५.

प्रतिसर-दधि-मधु-मोडक-स्व-  
स्तिक-नन्द्यावर्त-व(त्>)ती<sup>b</sup>-  
-त्याम् माग २, ६, ४.

प्रति√सृप>प्रति-सृप्य- आश्रौ ५,  
१७, ६<sup>१</sup>.

प्रति-सृक पा ६, १, १४१.

प्रति-स्तो<sup>a</sup>- -त्रम् वैश्रौ २१, ९:५.

प्रति-स्तोत्रीय<sup>d</sup>- -यम् जैश्रौका १७८.

प्रति-स्तोम<sup>d</sup>- -मम् वौश्रौ ७, ३:२४.

प्रति-स्थान<sup>d</sup>- -नम् अप १८<sup>३</sup>, १९, ४.

प्रति-स्नान<sup>d</sup>- -नम् विध ४६, ४.

प्रति√स्पश> <sup>०</sup>प्रति-स्पश<sup>b</sup>- -शः  
आपथ्रौ १७, ९, ६; वौश्रौ १०, २:

१; वैश्रौ १८, १४ : ४×४; तैप्रा  
६, १२.

प्रति-स्पाशन<sup>b</sup>- -नम् अप्रा ३, १,  
७<sup>१</sup>.

प्रति√स्म, प्रतिस्मरेयाम् शौच ८, ४,  
७<sup>१</sup>.

प्रति-स्रोत<sup>d</sup>- > <sup>०</sup>त-व(ह>)हा-  
-हाः अप ६४, ६, ६; ७०<sup>२</sup>, २३,  
३; ७०<sup>३</sup>, ११, १६<sup>१</sup>.

प्रति-स्रोतस्<sup>d</sup>- -तः अप ६७, ६,  
३; ७१, १४, २.

प्रतिस्रोतो-गामि(न् >)नी- -न्यः  
अप ७२, ३, ७.

प्रति-स्व<sup>d</sup>- -स्वम् आश्रौ ५, १७, ५;  
६, १२, ७; ऋप्रा ११, २०.

प्रति-स्वर<sup>a, b, c</sup>- -रे या ७, २३.

प्रति-स्वाहाकार<sup>d</sup>- -रम् काश्रौ १८,  
५, १६; आपथ १५, ६.

प्रति√हन्, प्रतिहन्ति भाश्रौ १, २२,  
४; प्रतिहन्मि या ३, १०<sup>१</sup>;

प्रतिहन्यात् वाध २०, १३.  
प्रतिहन्यते आम्रिग २, ५, १ :  
४८; जैग २, ९ : ३६.

प्रति-घ<sup>१</sup>- -घैः अप ६५, २, ३.

प्रति-घात- -तम् आपथ २, ५,  
११; हिध २, १, ९२.

प्रति-घ्ना( न >)ना- -नाः अअ  
११, ९.

प्रति-हत- -तः सु २७, ३; आशि ८,  
७; -तम् सु २७, २; वैग १, ७:३.

प्रतिहत<sup>m</sup>- -तः तैप्रा २०,  
३; कौशि ८.

प्रतिहत्वा ( त-अ ) भि-  
(धा>)घ<sup>n</sup>- -घः कौशि १५.

प्रतिहत-श(म्या>)म्य<sup>n</sup>- -म्ये  
आपथ्रौ ११, ६, ३.

प्रति-हृत् कौग २०, ७.  
प्रति-हृन्- -न्ता शंघ ३७७ : २;  
४१४.

प्रति-हरण- , <sup>०</sup>हृत्- प्रति√ह द्र.  
प्रति√हृत्, प्रतिहृत्ते या ११,  
१५<sup>१</sup>क; <sup>०</sup>प्रतिहृत् आश्रौ २,  
१४, १२; ४, १०, ३×४; हिश्रौ  
१४, ४, ३८.

१-२प्रति-हार- प्रति√ह द्र.  
प्रति-हित- प्रति√धा द्र.

प्रति√हु, प्रतिजुहोति वौश्रौ ३,  
१४ : ८; ८, २२ : १४×४;  
प्रतिजुहुयात् वौश्रौ २१, २६ :  
१८; १९<sup>२</sup>; २४, ३१ : ११; गोय.  
प्रतिहौषोः जैग १, २ : २०<sup>१</sup>.

प्रति-जुह्व- -ह्वन् वौश्रौ २४,  
१७ : ७.

प्रति√हृ, प्रतिहरते हिग १, ११, १;  
८; प्रतिहरति वौश्रौ १६, ७ :  
१०; माश्रौ १, २, ५, १४; हिश्रौ;  
प्रतिहरन्ति भाश्रौ २, ७, १०;  
प्रतिहर आपथ्रौ ६, २१, १<sup>१</sup>;  
प्रतिहरेत् लाश्रौ ७, ६, ८; ७, ३१;  
प्रतिहरेयुः द्राश्रौ ३, ३, ८; ५, ३,  
१०; लाश्रौ १, ११, १; २, ७, ९.  
प्रतिहारयति निस्. ३, १३ : ११;  
४, १ : २६; प्रतिहारयेन् द्राश्रौ  
१२, ३, १६; लाश्रौ ४, ११, १६.  
प्रति-हरण- -णाय अप्राय २, २; ३;  
-णेन कौस् ७१, १३.

प्रति-हृत्<sup>०</sup>- पाठभो २, १, १४६;  
पाग ५, १, १२९; -<sup>०</sup>लैः जैश्रौ

a) प्रासः । b) वैपश् द्र. । c) पाभे. वैप १, २१६० a द्र. । d) अस. । e) = सूर्यप्रतिविम्बसदृश- । f) व्यु.  
पाभे. च पृ ६०१ f, g द्र. । g) = करसूत्र- । धा. गतौ वृत्तिः । h) नन्द्यावर्त- = गोधूमविकार- इति भाष्यम् ।  
i) तु. आन. । j) <sup>०</sup>स्रोतोवहाः इति संस्कृतुः टि. । k) उप. = उपताप- । l) उप. करणे अर्प प्र., धा.  
धाऽऽदेशश्च (पा ३, ३, ८४) । m) = स्वरित-भेद- । स्वार्थे षण् प्र. । n) वस. । o) = ऋत्विग्-विशेष- ।

१४: ९; -र्ता आश्रौ ४, १, ६;  
शाश्रौ १३, १४, १; ८; काश्रौ;  
-र्तारः वौश्रौ ७, ८, १०; -र्तारम्  
काश्रौ ११, १, १८; आपश्रौ; -र्तुः  
आश्रौ ९, ४, १०; १२, ९, ४;  
आपश्रौ; -र्त्रे काश्रौ १०, २,  
३६; आपश्रौ १३, ६, २; माश्रौ.  
प्रातिहर्त्र- पा ५, १, १२९.  
प्रतिहर्त्-पोत्-नेष्ट् (ष्ट-अ) ष्ठा-  
वाक्-केभ्यः लाश्रौ ९, १, १२९.  
१प्रति, ती<sup>१</sup>हार- रः आश्रौ ५,  
१०, ३; आपश्रौ; ऋप्रा १४,  
२३<sup>१</sup>; -रस्य लाश्रौ ६, ११, २;  
निसू २, ८: ३१; -राः लाश्रौ  
७, ५, १; -रात् शाश्रौ ७, १०,  
२; माश्रौ; -रे जैश्रौ १७: २४;  
-र्णेण आपश्रौ १७, १०, १;  
वैश्रौ १२, ६: १५<sup>१</sup>.  
प्रातिहारिक- कम् लाश्रौ  
७, ७, ३३.  
प्रतिहार-व (त्>) ती- ल्यः  
लाश्रौ ६, १, १७.  
प्रतिहार-वेला- लायाम् द्राश्रौ  
६, ३, २, ९, ४, ८; लाश्रौ.  
प्रतिहार-स्थान- नम् लाश्रौ  
६, १०, २२.  
प्रतिहारो(र-ड)पाय- यात् निसू  
४, १: ३१; -यान् निसू ४, १:  
२६.  
२प्रति-हार- > प्रतिहार-विभू-  
पित- नम् अप ५, ४, ४.  
प्रति-हृत- न्ते शाश्रौ १७, १७, १३.

प्रति-हृत्य हिश्रौ ५, ४, २८xx.  
प्रति-हियमाण- गे जैश्रौ १७: २४.  
प्रती-हारम् कौसू २९, २२.  
प्रति-होम- मः मीसू ६, ५, ४०; ४३;  
-मम् आश्रौ २, ५, १६; आश्रित्य  
२, ७, ९: ३४; मागृ ३, २०:  
३; -मे वौश्रौ २१, २६: १८.  
प्रति ✓हृत्, प्रतिहसेत्<sup>१</sup> वैश्रौ १८,  
१६: ७५; वौश्रु ७: ४; प्रति-  
हसेत् हिश्रु ३, ३६<sup>१</sup>; प्रतिहसीत्  
आपश्रु ९, १७<sup>१</sup>.  
प्रति-हसमा (न>) ना- नासु  
आपश्रौ २, १२, ५; माश्रौ ६,  
१६, ५.  
प्रति ✓ह्वे, षप्रति (हुवे) आश्रौ ६, ४,  
१०: ८, १०, १; १२, ६; शाश्रौ.  
प्रती(ति✓इ), प्रत्यति शाश्रौ १६, २४,  
११; आपश्रौ ६, २५, ३; वौश्रौ  
८, ९: १८<sup>१</sup>; २६, २९: ९;  
माश्रौ; हिश्रौ ९, ३, ९<sup>१</sup>xx;  
प्रतियन्ति माश्रौ ५, २१, १२;  
८, १०, ८; वैश्रौ; या १२, ७;  
प्रति...चन्ति या १२, ७<sup>१</sup>;  
प्रति...एमि ऋअ २, १, १७१<sup>१</sup>;  
प्रति(एमि) वृदे ४, ५५<sup>१</sup>; प्रति-  
चन्तु शाश्रौ १५, २४, १<sup>१</sup>;  
प्रति...चन्तु मागृ १, १३, ८<sup>१</sup>;  
प्रति(इहि) वृदे ८, ७<sup>१</sup>; प्रत्यायन्  
शाश्रौ १२, १९, १<sup>१</sup>; प्रतीचात्  
आश्रौ १, १, १२xx; शाश्रौ;  
प्रतीयुः माश्रौ ६, १५, ११; वैश्रौ  
२१, ९: ७; प्रतीयाम् निसू २,

४: २१<sup>१</sup>; ६, १: १२xx.  
प्रतीयाय शाश्रौ १५, २२, १<sup>१</sup>.  
प्रतीयते वाश्रौ १, १, १, १९; वृदे;  
प्रतीचेत् शाश्रौ १, २, २१xx;  
द्राश्रौ; या १, १६; मीसू ९, २,  
१३<sup>१</sup>; प्रतीयेरन् आपश्रु २, १५;  
मीसू १, ३, ७xx.  
प्रती(ति-इ)त्- न्तः शाश्रौ १५,  
२६, १; हिपि २: ४; अप २०,  
२, ८; -ताः आपश्रौ ८, ११, १०;  
माश्रौ ८, १२, २१; हिश्रौ ५, ३,  
३३.  
प्रतीता(त-अ)र्थ- र्थानि या  
१, १३: १४.  
प्रती(ति-इ)ति- त्या शाश्रौ ८, २४,  
१<sup>१</sup>.  
प्रती(ति-इ)ल्य आपश्रौ ५, १, ७<sup>१</sup>;  
वौश्रौ; आगृ ३, १०, ११<sup>१</sup>.  
प्रतीय<sup>१</sup> तु ३०, ३.  
प्रती(ति-ई)यमान- ने पा १, ३, ७७  
प्रत्य(ति-अ)य (यप्रा.)<sup>०</sup>- पाग  
५, २, ३६; -यः निसू ३, ९:  
२४<sup>१</sup>; ४, ९: ८<sup>१</sup>; ९, ९: २८;  
ऋप्रा २, ५६<sup>१</sup>; ९, ३४; नाशि  
२, २, ४<sup>१</sup>; ६, ३; पा १, २, ४१;  
३, १, १; पावा; -यम् वौश्रौ  
२३, १२: २३; निसू ३, ९:  
२५; ४, ९: ९; मीसू २, ४,  
३०; -यस्य अप्रा २, १, १<sup>१</sup>; पा  
१, १, ६१; ३, ६; पावा ३,  
२, १२४xx; -याः पा ३,  
४, १; -यात् काश्रौ २२, ३,

a) ष्ट्राळ इति पाठः? यनि. शोधः। b) शाश्रौ. वैताश्रौ. पाठः। c) वैप १ द्र.। d) = वर्यो-दोप-  
(अतिप्रयत्न-).। e) विप. (गीत-).। f) = द्वार-पाल-। g) = प्रदक्षिणम् (तु. आपश्रौ २, ६, ७ हिश्रौ -  
१, ७, ३८ पुनराहारम् इति)। h) = पूरक-होम-। प्राप्त.। i) परस्परं पामे.। j) पामे. वैप १, २१६१ i द्र.।  
k) मः इति पाठः? यनि. शोधः ( तु. संस्कर्तुः टि., उत्तरं त्यक्तव्य )। l) प्रयुज्येत इति जीसं. प्रयु.। m) पामे.  
वैप १, २१६६ ट्ट द्र.। n) एकादेशत्याऽसिद्धत्वाभावस्य उलंसं. (पा ६, १, ८६) ह्यत्त्वाभावे तुग्-अभावः। o) भाप.,  
नाप. (पारिभाषिक-संज्ञा- [अप्रा. प्रयु.])। टप. भावाद्यर्थेषु अच् प्र.। p) = पर-।



४४; २५, १, ३; तैप्रा ५, ७<sup>३</sup>;  
पा ३, ३, १०२; ६, १, १९२; ४,  
१०६; मीत् ४, ३, १६; १०, ३,  
४८; -ये वीश्रौ २२, २ : ५; निस्  
३, ९; २५; ४, ९; विध; पा १,  
४, १३; ६, १, ७९; -येन वीश्रौ  
२४, १ : १; १२; पावा १, २,  
४५; ५, ३, ८३; नाशि २, ६, २;  
-येषु ऋप्रा ४, ४५<sup>३</sup>; माशि ९,  
७; १३, १०; नाशि २, ४, ४;  
-यौ पावा ४, २, ३६<sup>०</sup>.

प्रात्ययिक<sup>६</sup> -काः गौध १३,  
२.

प्रत्यय- -यस्य पा ८, २, ६२;  
-यात् पा ३, १, ३५; पावा ७, २,  
४८; -ये पा ३, ४, ६१××.

प्रत्यय<sup>०</sup> पावा १, १, २१.

प्रत्यय-ग्रहण- -णम् पावा १,  
१, ६१; ७२××; -णे<sup>०</sup> पावा १,  
४, १३; १४; ५, २, ४६; ७, १, ९६.

प्रत्ययग्रहणो (ण-उ)पचार-

-रेषु पावा ४, १, १.

प्रत्यय-त्व- -त्वात् निस् ९,  
९ : २९.

प्रत्यय-दर्शन- -नात् नाशि १,  
८, ४.

प्रत्यय-नियम- -मे पावा १, ३,  
१२; ४, २१; ३, १, २; ४, ६७.

प्रत्यय-पर-त्व- -त्वे पावा ८, ३,  
७९.

प्रत्यय-पर-वचन- -नात् पावा  
३, ४, ६७.

प्रत्यय-प्रतिषेध- -धः पावा १,  
१, ४६.

प्रत्यय-प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा ३, १,

९२.

प्रत्यय-मन्त्र<sup>१</sup>- -न्त्रात् वीश्रौ  
२३, १० : १०<sup>२</sup>.

प्रत्यय-मात्र-प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा  
४, २, ३४; ६, ४, १४१.

प्रत्यय-लक्षण- -णम् पा १, १,  
६२.

प्रत्ययलक्षण-त्व- -त्वात्  
पावा १, २, ४५; ६, ४, १३२.

प्रत्ययलक्षण-प्रतिषेध- -धः  
पावा १, १, ६०; ३, ४, ११०;

-धस्य पावा १, १, ११××.

प्रत्ययलक्षण-वचन- -नम्  
पावा १, १, ६२.

प्रत्यय-लोप- -पः पावा २, ४,  
७०; -पे पा, पावा १, १, ६२.

प्रत्ययलोपिन्- -पिनः अप्रा  
२, २, ३; ४.

प्रत्यय-वचन- -नात् पावा ५,  
३, ६७.

प्रत्यय-वत् > °द्-अनुदेश-  
-शे पावा ६, ३, ६७<sup>२</sup>.

प्रत्यय-विज्ञान- -नम् पावा ५,  
३, ५५.

प्रत्यय-विधान- -नम् पावा २,  
४, ८१××; -नस्य पावा ४, ४,  
७६; -नात् पावा ३, १, ७××;

-ने पावा ४, २, ५५; ३, १.

प्रत्ययविधाना(न-आ)नर्थ-  
क्य- -क्यम् पावा ४, ४, ६७, ७६.

प्रत्ययविधाना(न-आ)नुप-  
पत्ति- -त्तिः पावा ३, १, १; ५, ३,  
६७××.

प्रत्यय-विधि- -धिः पा १, ४,  
१३; पावा १, ४, २; ६, १, ४५;

-धौ पावा ४, १, १; २, ३, ८××.  
प्रत्ययविध्य(धि-अ)र्थ- -र्थम्

पावा ६, १, ५०; ७, १, ५८.

प्रत्यय-सकार- -रस्य शौच २,  
८७.

प्रत्यय-संज्ञा-संनियोग- -गात्,  
-ने पावा ३, १, ३; -नेन पावा

५, ३, ८८.

प्रत्यय-संनियुक्त- -क्तम् पावा  
४, ३, २३.

प्रत्यय-सवर्ण<sup>१</sup>- -णम् शुप्रा ३, ९.

प्रत्यय-स्थ- -स्थात् पा ७, ३, ४४.  
प्रत्यय-स्वर- -रः पावा ६, १,  
१५४.

प्रत्ययस्वर-भाव- -वः पावा  
६, १, १५४.

प्रत्ययस्वरा(र-अ)भाव- -वः  
पावा ३, १, ३; ६, १, १५४.

प्रत्यया(य-अ)दर्शन- -नम् पावा  
१, १, ६२; -नात् पावा ३, १, २.

प्रत्यया(य-अ)दि- -दीनाम्  
पा ७, १, २; -देः ऋप्रा १४,  
५९; पावा ४, १, १५८; २, ९१.

प्रत्यया(य-अ)द्युदात्तत्व- -त्वात्  
पावा ३, १, ३.

प्रत्यया(य-अ)धिकार- -रात्  
पावा ७, १, ३; -रे पावा ३, १, १.

प्रत्यया(य-अ)नियम- -सः पावा  
३, १, २.

प्रत्यया(य-अ)नुपपत्ति- -त्तौ  
पावा ५, २, १२.

प्रत्यया(य-अ)नुपपत्ति- -त्तिः  
पावा ३, ३, १६१; ५, १, २; १३.

प्रत्यया(य-अ)न्त<sup>३</sup>- -न्तात् पावा  
४, १, ९३<sup>३</sup>; ३, १५३.

a) = अकार-इति सोमथार्थः, = पर-इति गार्ग्यगोपालः । b) = पर- । c) तु. पाकः । d) = विश्वस्त- ।

तेनचरतीत्यर्थे ठक् प्र. (पा ४, ४, ८) । e) = अङ्गसंज्ञा-सूत्र- । वस. इति कैयटः । f) पूष. अर्थः ? । g) पूष-

= पर- । h) विप. । वस. ।

प्रत्ययान्त-निपातन- ने  
पावा २,४,७०.

प्रत्यया(य-अ)न्तर- रम् अत्रा  
१,२,१४; २,१,८; ९; -रे पावा  
५,२,४८; ४९; -रेषु पावा १,  
३,१.

प्रत्यान्तर-करण- -णम् पावा  
५,४,११३; ६,४,५५.

प्रत्ययान्तर-प्राप्ति- -सि:  
पावा ४,१,९३.

प्रत्यया(य-अ)र्थ- -र्थस्य पावा  
१, ३, १; -थे ऋप्रा ६, ३४;  
पावा ३,३, १६१; -थेन पावा  
४,१,१.

प्रत्ययार्थ-निर्देश- -ज्ञा: पावा  
३,१,१९.

प्रत्ययार्थ-परिग्रहा(ह-अ)र्थ-  
-र्थम् पावा ३,१,२६.

प्रत्यार्थ-बहुत्व- -त्वे पावा  
२,४,६२.

प्रत्यार्थ-विशेषण- -णम् पावा  
३,१,१२.

प्रत्ययार्था(र्थ-अ)भाव-  
-वात् पावा ४,१,४५.

प्रत्यया(य-अ)वधारण- -णात्  
पावा २,३,५०.

प्रत्यया(य-अ)विशेष- -पात्  
काश्रौ २२,३,४६.

प्रत्यया(य-अ)व्यवस्था- -स्था.  
पावा १,१,५१.

प्रत्यया(य-अ)श्रय<sup>२</sup>-त्व- -त्वात्  
पावा १,१,४.

प्रत्ययित- पा ५,२,३६.

प्रत्ययित-पुरुपा(प-अ)धि-  
दित- -त्तम् शंघ ३२०.

प्रत्ययै(य-ए)कादेश- -श: पावा  
६,१,८४.

प्रत्ययो(य-उ)त्तरपद- -दयो: पा  
७,२,९८; पावा २,१, ५१<sup>२</sup>xx.

प्रत्ययो(य-उ)त्पत्ति- -त्ति: पावा  
४,१,९३.

प्रत्ययो(य-उ)दात्तत्व- -त्वे पावा  
८,१,७१.

प्रत्यय(ति-अ)यन- पाग ८,१, २७.

प्रत्ये(ति-ए)तव्य,व्या- -व्यम् निसू  
२, १०: २६<sup>३</sup>; -व्या आपश्रौ  
१९,१८,५; हिश्रौ २२, २, ४;

-व्या: आपश्रौ २१, १२, ३;  
वाध १,१०; उनिसू ७: २.

प्रत्ये(ति-ए)सुम् निसू २,४: ३८xx.

प्रतीक<sup>b</sup>- पाउमो २, २, २०; -क:  
अत्र २, १२; शुअ ३, १०५;

-कम् वौश्रौ १५, २४: ७; सु  
१७,४९; आगृ ३,१२, ३; पागृ  
३,१५,२३<sup>३</sup>; या ७,३१<sup>३</sup>; -केन  
वौश्रौ १३, ३५: ५<sup>३</sup>.

प्रतीक-ग्रहण- -णम् शांश्रौ १,  
१७,१.

प्रतीक-चोदित,ता- -त्तम् शुअ ३,  
२४४; -ता: शुअ ३,१४६; -ते  
शुअ ३,१५०; १७८.

प्रतीक-वत्- -वते वौश्रौ १३,३५:  
३<sup>३</sup>; १८,४८: ६.

प्रतीको(क-उ)क,का- -कम् शुअ  
४,४१; -क्ता: शुअ २,१७८xx;

-क्ते शुअ ३, २१७; २३३.

प्रती-काश- प्रति/काश द्र.

प्रती(ति/इ)क्ष,प्रतीक्षते काश्रौ २, २,  
१३; आपश्रौ १, ११, १०xx;

वौश्रौ; प्रतीक्षन्ते वाध ११,२५;

प्रतीक्षे आश्रौ १, १३; १<sup>d</sup>xx;

शांश्रौ ४,७,४<sup>d</sup>; ७,४,४<sup>e</sup>; काश्रौ:  
वैताश्रौ ३,८<sup>f</sup>; कौसू ९१, २<sup>f</sup>;

प्रतीक्षन्ताम्<sup>g</sup> आपमं १,१,८;  
वौश्रौ; प्रतीक्षत कप्र १,६,७; २,६,  
४; अत्र; प्रतीक्षेरन् शांश्रु ६,३,४.

प्रती(ति-ई)क्षा- -क्षा आपध २,२२.  
१७; हिध २,५,१४८.

प्रती(ति-ई)क्ष्य शांश्रौ ४, ७, ४;  
७,४,४; आपश्रौ.

प्रती(ति/इ)च्छ,प्रतीच्छामि आपध  
१,२२,६; हिध १,६,६.

प्रती(ति-इ)त- प्रंश्रु. प्रती(ति/इ)द्र-  
प्रतीथि- प्रतिथि- द्र.

प्रतीप,पा<sup>h</sup>- पाग ३, १, १८; ५, २,  
१३१<sup>f</sup>; ६, २, १७०; -प:  
काठश्रौ १०८; १०९; माश्रौ २,  
२, ५, १४; -पम्<sup>j</sup> शांश्रौ १२,  
१८,१; १३,२९, ११; आपश्रौ:  
-पा अत्र ६७,६,४; -पा: अत्र  
७०<sup>३</sup>,१९,१.

प्रतीपिक- पा ४,४,२८.

प्रतीप-सार(सि>)गी<sup>k</sup>- -णीम्  
वाश्रौ ३,३,२,१०.

प्रतीपाय पा ३,१,१८.

प्रतीपिन्- पा ५,२, १३१.

प्रतीय, यमान- प्रती(ति/इ)द्र  
प्रती-राध- प्रति/राध द्र.

प्रती-रोध- प्रति/रुध द्र.

प्रती-बाह- प्रति/वह द्र.

प्रती-वेश- प्रति/वेश- द्र.

प्रती(ति-इ)प्रक<sup>l</sup>- -कम् काश्रौ १७,१,  
१५; मौसू ९,१, २६.

प्रती(ति-इ)ष्टि<sup>m</sup>- -ष्टि काश्रौ १५,८,५;  
काश्रौसं ३: ६.

a) विप. । वस. । b) पुं. न. च । वैप १ द्र. । c) पाभे. वैप १ शुरीरम् खि ४,८,५ टि. द्र. । d) पाभे. वैप १,  
२१६२f द्र. । e) पाभे. वैप १ परि. अवल्येषम् टि. द्र. । f) पाभे. वैप १, २१५० h द्र. । g) पाभे. वैप १,  
२१६२ e द्र. । h) विप. । वैप १ द्र. । i) प्रमीप- इति पाका. । j) क्वि. । k) = २अप्- । उस. । l) अस. ।

प्रती-हार-<sup>१</sup>रम् प्रति<sup>२</sup>ह द्र.  
 प्र<sup>३</sup>तुद्<sup>४</sup> > प्र-तुद्<sup>५</sup> - तुदाम् आपध  
 १, १७, ३३; हिघ १, ५, ६४.  
 प्र-तुद्<sup>६</sup> - दान् शंघ ४२६.  
 प्रतुद्-विष्कर-जालपाद- -दाः  
 गौघ १७, ३३.  
 प्र-तोद्<sup>७</sup> - -दः काश्रौ २२, ४, ११;  
 आपश्रौ २२, ५, ५; हिश्रौ; -दम्  
 शंघ ७२; ऋअ २, ६, ७५.  
 प्रतोद्-दण्ड- -ण्डः वौश्रौ १८,  
 २४; १२.  
 प्रतोद्-परिपेवण- -णम् वौश्रौ  
 १८, २४; १२.  
 प्रतोद्-पाणि<sup>८</sup> - -णिः वौगृ १, १,  
 २४.  
 प्र<sup>९</sup>तुर्<sup>१०</sup> > प्र-तूर्त्<sup>११</sup> - पा ८, २, ६१;  
 पाग ५, २, ६२; -र्त्तम् काश्रौ  
 १६, २, ९; आपश्रौ.  
 प्रतूर्त्क- पा ५, २, ६२.  
 प्र-तूर्त्ति- पाग ६, २, ११८<sup>d</sup>; -र्त्तिः  
 काश्रौ १७, १०, १०; वौश्रौ;  
 -र्त्तिषु आश्रौ ७, ३, १९××;  
 शाश्रौ.  
 प्र<sup>१२</sup>तृ<sup>१३</sup> (<तु)र्त् > प्र-तूर्त्व- -र्वन्  
 काश्रौ १६, २, १०; वौश्रौ १०,  
 २; ९; वृअ २, १९.  
 प्र<sup>१४</sup>तृद्<sup>१५</sup> > प्र-तूर्दन<sup>१६</sup> - -न विध ९८,  
 ४९; -नः ऋअ २, ९, ९६; १०,  
 १७९; साअ १, ५३२××.  
 प्र-तृघ काश्रौ ६, ७, १४.  
 प्र<sup>१७</sup>तृत्, प्र(तरति) वौश्रौ १३, ४२;  
 ३; साअ १, १०८; २, ११७२;

प्रतर आमिगृ ३, ८, २: ४७;  
 वौपि १, १५: ४; प्रतरत् > ता<sup>१</sup>  
 आमिगृ ३, ६, १: २४; वौपि १,  
 ९: १; कौसू ७१, २४; ८६,  
 २७.  
 प्रतिरस्ते वौश्रौ १९, ५: ३०;  
 प्र...तिरस्ते या ११, ६<sup>६</sup>;  
 प्र (तिरस्ते) आश्रौ ७, ८, १;  
 शाश्रौ १२, १०, ७; आपश्रौ १९,  
 २७, १७; हिश्रौ २२, ६, २६;  
 प्र...तिरसि ऋप्रा ८, ४६;  
 प्र...तिरामः<sup>२</sup> आपश्रौ १६,  
 १६, ४; वैश्रौ १८, १४: १४;  
 प्रतिरन्तु आपश्रौ १६, १६, ४;  
 वैश्रौ १८, १४: १५; कागृ २७,  
 ३; या १२, ३९; प्रतिर > रा  
 या १०, ४०<sup>६</sup>; ऋप्रा ८, ४;  
 प्र...तिर आश्रौ ५, १९, ३<sup>१</sup>;  
 शाश्रौ; प्र...तिरत् या ११,  
 ३६; प्र...तिराम कागृ २७,  
 ३<sup>२</sup>; प्र...तिरत् या ६,  
 १६; प्र...तिरेत् ऋप्रा ५,  
 ५८.  
 प्र...तारिपत् आश्रौ ४, १२,  
 २<sup>१</sup>; ५, १, १७; आपश्रौ; हिश्रौ  
 १५, १, ७१<sup>१</sup>; अघ्राय २,  
 ७<sup>१</sup>; अप ४६, ३, ४<sup>१</sup>;  
 भाशि १०<sup>१</sup>; ३५<sup>१</sup>; प्र...तारिपत्  
 कौसू ११७, ४<sup>१</sup>; प्र...तारिपः  
 शाश्रौ ६, ७, १०<sup>१</sup>; ९, २७, २<sup>१</sup>;  
 आमिगृ २, १, ५: ८<sup>१</sup>; या ११,  
 ३०<sup>१</sup>; आपमं २, १५, १५<sup>१</sup>;

आगृ १, १६, ५<sup>१</sup>; कौगृ १, १९,  
 १०<sup>१</sup>; शांगृ १, २७, ७<sup>१</sup>; जैगृ १,  
 १०: ३<sup>१</sup>; प्र...तारी: वैताश्रौ  
 १९, १०; या ४, ७.  
 प्रतारि शाश्रौ १६, १३, ५;  
 आपश्रौ ६, २२, १<sup>३</sup>; ऋअ २,  
 १०, ५९; वृदे ७, ९१.  
 प्र-तरण<sup>३</sup> - -णः वौश्रौ ६, १७:  
 १२; आपमं २, १५, २०; पागृ;  
 या ९, १२; -णम् अशां १९,  
 ७; -णे अप ४८, १०५<sup>२</sup>.  
 प्र-तरणी- -णी कौसू ७७,  
 २०; -णीम् कौगृ ३, २, २; ३;  
 शांगृ ३, २, ५; ६; पागृ ३, ४, ४.  
 प्र-तरत् - -स्ताम्<sup>४</sup> काश्रौ १३,  
 ३, २६; आपश्रौ २१, २०, ३;  
 वाश्रौ ३, २, ५, ४३; हिश्रौ १६,  
 ६, ४१; -रन् कौसू ९९, २.  
 प्र-तर(त)ता<sup>५</sup> - -ताः<sup>५</sup> वैताश्रौ  
 ३४, ९.  
 प्र-तिर<sup>६</sup> - -रभ्यः वौश्रौ ९, ११:  
 १०; वैश्रौ १३, १३: ११.  
 प्र-तिरत् - -रन् आपश्रौ २, २१,  
 १; ३, ११, २; वौश्रौ; -रन्तौ  
 माश्रौ २, १, ४, २७.  
 प्र-तिरम्<sup>७</sup> मागृ २, १, १३<sup>१</sup>.  
 प्रत्न,त्ना(वप्रा.)<sup>८</sup> - पावा ५, ४, २५<sup>१</sup>;  
 -त्नः कौसू ४६, २५<sup>१</sup>; अघ्राय ६,  
 ९; अअ ६, ११०<sup>१</sup>; या ३, १६;  
 १२, ३२<sup>१</sup>; अप्रा ३, ४, १<sup>१</sup>;  
 -त्नम् आपश्रौ ६, ८, ११<sup>१</sup>××;  
 वौश्रौ; निसू ६, २: २७<sup>१</sup>; ५:

a) = पक्षि-विशेष- । गस. । b) वैप. १ द्र. । c) विप. । वस. । d) प्रपूर्ति- इति पाका. । e) विप.  
 (विष्णु- [विध.]) । शिष्टं वैप १ द्र. । f) पामे. वैप १, २१६३ i द्र. । g) पामे. वैप १, २१६३ j द्र. । h) पामे.  
 वैप १, २१६४ ० द्र. । i) पामे. वैप १, २१६३ l द्र. । j) पामे. वैप १, २१६४ d द्र. । k) पाठः ? 'रिखव  
 इति शोधः (तु. सा. [ऐत्रा २, २०], ०. च) । l) वैप १, २१६४ e द्र. । m) पामे. वैप १, २१६४ f द्र. ।  
 n) = संप्राम- । o) परस्परं पामे. । p) विप. । उप. कर्तरि अतत् प्र. उस्. (पाठ ३, ११०) । q) विप. > नाप. ।  
 उप. कर्तरि कः प्र. उस्. (पा ३, १, १३५) । r) पामे. वैप १, २१३९ j द्र. । s) विशेष उत्तरत्र टि. द्र. । t) तु. पाका. ।

१९<sup>a</sup>; ७, ३: १३<sup>b</sup>; ऋप्रा  
 १७, ५<sup>a</sup>; -ःतस्य आश्रौ ४,  
 १५, २; ८, १०, १; शाश्रौ;  
 -ःतान्<sup>c</sup> अत्र ६, १३६; अर्प  
 ३: १३; -तानि अप्राय ६,  
 ३<sup>d</sup>; -ःतान् शाश्रौ २, ११, २;  
 काश्रौ; -तानः सात्र १, ५०२<sup>e</sup>;  
 -ःतान् आश्रौ १, ५, ३५; शाश्रौ;  
 -लेषु आश्रौ ८, १०, ३<sup>f</sup>; -तैः  
 निस् २, ३: ३३<sup>g</sup>.  
 ऋप्रत्य-या आश्रौ २, १९, २४<sup>h</sup>;  
 शाश्रौ; .या ३, १६<sup>i</sup>; पा ५,  
 ३, १११.  
 ऋप्रत्य-वत् आपश्रौ ६, ३१, १२;  
 वीश्रौ १३, २४: ११<sup>j</sup>; वैश्रौ.  
 प्रत्य-वत्-वद्भिः वीषि २, ९, ६;  
 ११, ३.  
 प्रत्यवती<sup>k</sup>-त्यः निस् १, १३:  
 १२; ७, ११: २७; -त्याम् वृदे  
 ६, ४६.  
 प्रत्ना(ल-अ)नुरूप<sup>l</sup>-पः लाश्रौ  
 १०, ३, १७; निस् ९, १०: ३१<sup>m</sup>;  
 प्र(ल>)ला-वार्कजन्म<sup>n</sup>-म्भम्  
 लाश्रौ १०, ४, ९.  
 प्रत्यं(ति-अं)शु-पा ६, २, १९३.  
 प्रत्यङ्ग-प्रत्य(ति/अ)च्, ञ् द्र.  
 प्रत्य(ति-अ)क्ष, क्षा<sup>o</sup>-पाग ५, ४, ३८;  
 पावा ५, ४, १०७; -क्षः शाश्रौ  
 ५, १०, २९; वीश्रौ २१, १२:  
 ८; या ३, ५; -क्षम् आश्रौ १, ३,  
 १६<sup>p</sup>; शाश्रौ; आपमं १, १७,  
 ९<sup>q</sup>; या १३, १२; मीस् ११,  
 १, २७<sup>r</sup>; -क्षयोः क्षुस् २, १४:

१३; -क्षस्य क्षुस् २, १३: ३;  
 ५<sup>s</sup>; -क्षा शंघ २५१;  
 -क्षणास् क्षुस् २, १४: ८;  
 -क्षाणि वीश्रौ २२, २: २१;  
 २२; हिश्रौ ३, ८, ३९; क्षुस् २,  
 १२: २; १७; -क्षात् काश्रौ १,  
 ८, १३; मीस् ७, ३, ४; -क्षाम्याम्  
 निस् ४, ६: ११; -क्षे निस् ८,  
 ७: २७; -क्षेण लाश्रौ १०, १६,  
 ३; वाघ; -क्षेषु क्षुस् २, १२:  
 २, १६.  
 प्रत्यक्ष-पा ५, ४, ३८.  
 प्रत्यक्ष-कारि-ग्रहण-णम्, -णस्य  
 पावा ४, ३, १०४.  
 प्रत्यक्ष-कृ(त>)ता-ताः या ७,  
 १-३.  
 प्रत्यक्ष-तम-मम् वाधुश्रौ ४, ९९:  
 ६.  
 प्रत्यक्ष-तत्तः(ः) शंघ ३२५.  
 प्रत्यक्ष-त्व-त्वात् मीस् ७, ४, १५.  
 प्रत्यक्ष-द्वय-द्वयम् या ७, ४.  
 प्रत्यक्ष-दैव-वाः विघ १९, २०;  
 -क्षेषु विघ १९, २३.  
 प्रत्यक्ष-नामन्-ना माश्रौ २, १, २,  
 २९.  
 प्रत्यक्ष-परोक्ष-क्षिप्र-चिर-न्यस्तो-  
 (स्त-त्)दात्त-कृष्टा(ष्ट-अ)कृष्ट-  
 -ष्टानाम् लाश्रौ ६, १०, १९.  
 प्रत्यक्ष-पृष्ठ<sup>t</sup>-ष्टः आश्रौ ८, ४, २२.  
 प्रत्यक्ष-प्राङ्गय-पृष्ठ<sup>u</sup>-ष्टः क्षुस् २,  
 १३: ८; १२.  
 प्रत्यक्ष-फल-त्व-त्वात् आपध २,  
 २३, ९; हिघ २, ५, १६२.

प्रत्यक्ष-वृहती-तीः शाश्रौ ३८, ९-  
 ११, १; -त्यः शाश्रौ १८, ८,  
 २<sup>v</sup>;  
 प्रत्यक्ष-भक्षम् काश्रौ १९, ५, १०;  
 दाश्रौ १२, ४, २१; लाश्रौ ४,  
 १२, १५.  
 प्रत्यक्ष-रुवण-णम् विघ ७९, १२.  
 प्रत्यक्ष-वत् वीश्रौ २१, १२: ८;  
 आपध २, १२, २१; हिघ २, ४,  
 ५८.  
 प्रत्यक्ष-वाचि-त्व-त्वात् पावा ४,  
 ३, १२०.  
 प्रत्यक्ष-विकार-रः लाश्रौ १०, १०,  
 ४; -रात् लाश्रौ ९, ११, १४.  
 प्रत्यक्ष-विधान-नात् गौष ३, ३६;  
 आपध ८, २; हिस् ३, ३; मीस्.  
 प्रत्यक्ष-विभक्ति<sup>w</sup>-क्ति निस् ३, ९:  
 १३.  
 प्रत्यक्ष-विहित-तम् शाश्रौ ३,  
 १९, ८; लाश्रौ १०, २०, ११.  
 प्रत्यक्ष-शिष्ट-त्व-त्वात् मीस् ५,  
 ४, २२; ६, ७, ९<sup>x</sup>;  
 प्रत्यक्ष-श्रुता(त-आ)ज्ञात-तानि  
 भाश्रौ ६, १६, ३.  
 प्रत्यक्ष-संयोग-गात् मीस् ५, २,  
 २१; ११, ४, २१.  
 प्रत्यक्षा(क्ष-आ)पर्व-पृष्ठ<sup>y</sup>-ष्टः  
 क्षुस् २, १३: २, ६.  
 प्रत्यक्षा(क्ष-आ)म्नात-ताः हिश्रौ  
 ६, ४, ४२.  
 प्रत्यक्षा(क्ष-अ)र्थ-र्याः वैश्रौ  
 १७, १०: ११; -र्यानि आपधौ  
 १४, ५, ४; हिश्रौ ९, ८, २.

a) = छन्दो-विशेष-। b) = साम-विशेष-। c) पामे. वैप १, २१६५ ज द्र.। d) पामे. वैप १,  
 २१६५ ए द्र.। e) पामे. वैप १, १९११ क द्र.। f) प्रयत्नैः इति मूत्रो.। g) = ऋन्-। h) विप.। वस.।  
 इ) उप. = तुच- (तु. सप्र. तां ११, १, १)। j) = साम-द्वय-। k) वैप-१ द्र.। l) प्रत्यक्षभावे तद्वति च वृत्तिः।  
 m) पामे. वैप १, २२२६ ए द्र.। n) ष्वतः इति जीसं. प्रमृ.। o) = एकाह-विशेष-। वस.। p) = पठह-।  
 वस. > वस.

प्रत्यक्षो(क्ष-उ)क्त- -क्तम् आश्रौ  
११,६,१२.  
प्रत्यक्षो(क्ष-उ)पदेश- -शात् मीस्  
३,५,३४.  
प्रत्यक्षो(क्ष-उ)पाङ्ग्य-पृष्ठ- -ः  
जुस् २,१३:१४:१७.  
प्रत्य(ति-अ)ग्नि- -ग्नि काश्रौ १२,३,  
२; २५, ७, १२; वैश्रौ २०,२:  
४; कौस् २१,१९.  
प्रत्यग्रथ- > प्रात्यग्रथि- पा ४, १,  
१७३.  
१प्रत्य(ति-अ)ङ्ग- -ङ्गम् वैगृ १, २:  
१२; मीस् १०,७,२; ११,४,४९;  
-ज्ञानाम् माश्रौ ५,२, ९,४.  
२प्रत्य(ति-अ)ङ्ग- -ज्ञानि या ७,४.  
प्रत्यङ्ग-भाव- -वात् मीस् ६, ६,  
१५.  
१प्रत्यङ्गिरः अथ ३,१,१०.  
प्रत्यङ्गिरस- -सः अथ १०,१.  
प्रत्य(ति/अ)च्, ञ्च् > प्रत्य(ति-अ)-  
क्त,क्ता- -क्तः या १२, ३३;  
-क्तम् या ७, ३१; १२, ३३;  
-क्ते या ८,१५.  
प्रत्य(ति-अ)च्, ञ्च्- -तीचः काश्रौ  
३, ५, १०; आपश्रौ ३, ५, १;  
११,७,३; वौश्रौ; -तीचा वौश्रौ  
३,६:१८; ७, ५:४४; -तीचि  
जैश्रौका २२; द्राश्रौ १, २, २८;  
लाश्रौ १,२,२१; -त्यक् आश्रौ १,  
११,४; शाश्रौ १८,२१,७; काश्रौ;  
वाश्रौ १,२,४,४२<sup>h</sup>; -त्यङ् शाश्रौ

२, ७, १३; काश्रौ ९, ११,१०;  
आपश्रौ; या १२,२४<sup>h</sup>क; -त्यञ्चः  
शाश्रौ ६, १२, १३क; आपश्रौ;  
-त्यञ्चम् शाश्रौ ४,३,७; ५,१३,  
३; काश्रौ; आपश्रौ ६,२१,१क;  
१८, १४, १२क; या ५,  
३क; -कत्वञ्चाश्म<sup>h</sup> अथ १,  
१, ५; शौच १, १०५; -त्यञ्चि  
काश्रौ ९, १, ४; १७, ५, १३;  
आपश्रौ; -त्यञ्चौ आपश्रौ १,  
२२,२××; काठश्रौ ३४, वौश्रौ.  
प्रतीची- -ची आश्रौ १०,  
१०, १०; शाश्रौ १६, ९, २०;  
काश्रौ २०, ४, २७; आपश्रौ;  
या ३, ५क<sup>h</sup>; ८, १५क; -चीः  
आपश्रौ १६, २१, ९क××;  
वौश्रौ; -चीम् शाश्रौ २, ९,  
१०××; काश्रौ; आपश्रौ १,१९,  
५<sup>h</sup>; माश्रौ १, २१,३<sup>h</sup>; माश्रौ  
१,२,२,८<sup>h</sup>; हिश्रौ १,५, ४४<sup>h</sup>;  
-च्यः वौश्रौ १२, ८:३; वृदे  
७,११५; -च्या शाश्रौ ४, ११,  
४क; आपश्रौ; -च्याः कौस्  
४२,८; अथ ६,९; क<sup>h</sup>अथ ९,  
३××; -च्याम् आश्रौ १, ११,  
७क; शाश्रौ ६,३,३क; आपश्रौ  
२२, १६, ४; वौश्रौ ३, २०,  
१४क××; वाश्रौ; -च्यै वौश्रौ  
३, २८:४; १८, ५२:२;  
वौश्रौ; -च्यौ वौश्रु १०:२८.  
प्रतीची-स्थ- -स्थान्

अथ ३,२६.  
प्रतीचीन- -नः कौस् ६६,  
२१क; -नम् आपश्रौ २, ७,  
१२××; वौश्रौ; -नाः वौश्रौ  
२४,३६:११; -ने वृदे ७,१८क.  
प्रतीचीन-प्रीव,वा- -वस्  
आपश्रौ १,१९,४; वौश्रौ १, ६:  
१३; माश्रौ; -वया वौश्रौ ६,  
१५:४.  
प्रतीचीन-पाठ- -ठ्स्  
वौश्रौ २०, २८:१५.  
प्रतीचीन-प्रजन(न > )  
ना- -नाम् वौश्रौ २,१६:  
३१; वैश्रौ.  
प्रतीचीन-प्रवण- -णम्  
वौश्रौ २,६:३१.  
क<sup>h</sup>प्रतीचीन-फल- -लः कौस्  
४६,४९; अथ १८<sup>h</sup>,५, २; ३२,  
१,२; अथ ७,६५; अथ २:७३.  
प्रतीचीन-विल,ला- -लम्  
वौश्रौ ९, १२:२१; १५:१८;  
३२; वैश्रौ १३, १४:५; १३;  
१४; -लाम् वौश्रौ ९, १५:४;  
-ले वौश्रौ ९, १५:६.  
प्रतीचीन-शिरस्- -रसम्  
वौश्रौ ४, ६:३३; २०, २८:  
१४; आमिष्ट ३, २,५:६.  
प्रतीचीनशिरसी- -सीम्  
वौश्रौ २, ९:२०; आमिष्ट २,  
५,८:४; वौश्रु २,७,८; ११,९.  
प्रतीचीन-स्तोम- -मः वौश्रौ

a) = पडह-। कस. > वस. । b) अस. । c) = जनपदशब्दक्षत्रिय-। व्यु. ? । d) वस्- अभावः  
उसं. (पा २,४,८३) । e) प्रास. । f) = ऋपि-विशेष-। व्यु. ? । g) वैप १ द्र. । h) सप्र. प्रत्यक् <>  
प्रतीचीम् इति पाभे. । i) पाभे. वैप १,२१६६ h द्र. । j) पाभे. वैप १,२१६६ i द्र. । k) वैप १ निर्दिष्टयोः  
समावेशः द्र. । l) पाभे. वैप १,२१६७ e द्र. । m) विप. । वस. । n) सप्र. प्रतीचीनप्रीवम् <> प्रत्यग्-  
प्रीवम् इति पाभे. । o) उप. = प्रजननस्थानीय-गर्त- । p) सप्र. प्रतीचीनप्र <> प्रत्यङ्प्र इति पाभे. ।  
q) सपा. प्रतीचीनशि <> प्रत्यक्शि इति पाभे. । r) सप्र. प्रतीचीनशिरसम् <> प्रतीचीनशिरसीम् <>  
प्रत्यक्शिरसम् <> प्रत्यक्शिरसीम् <> प्रत्यक्श्रीर्षीम् इति पाभे. ।

१२, २० : १७; २६, २ : ९; ३,  
९; १५; वाश्रौ ३, ३, ४, ४१;  
निसू ७, ६ : १९; -माय वौश्रौ  
१२, २० : ६; २६, २ : १३; -मे  
वैताश्रौ ३२, ११<sup>९</sup>.

प्रतीचीना(न-अ)प्र, प्रा<sup>७</sup>-

-अम् वौश्रौ ९, १५ : ८; १५;  
३४; -प्राः वौश्रौ ९, १५ : १३;  
२७; -प्रे वौश्रौ ९, १५ : १२;  
१७; २४.

प्रतीचीने(न-इडा >) ड<sup>८</sup>-

-डम् लाश्रौ ७, २, १; निसू  
३, १० : १०; -डानि लाश्रौ  
७, ८, १६.

प्रतीच्य- पा ४, २, १०१; -च्यम्  
माश्रौ ५, १, १, ९; निध ३, २५<sup>१</sup>;  
-च्येन वैश्रौ १२, १२ : ११;  
-च्यौ वैश्रौ १३, ११ : ३.

प्रत्यक्-तर- -रम् आश्र १, १०,  
१७.

प्रत्यक्-प(द् >) दी<sup>७</sup>- -दीम्

गोश्र ३, १०, २५.

प्रत्यक्-पाश<sup>७</sup>- -शम् माश्रौ ६,  
१, ७, २.

प्रत्यक्-प्रजन(न >) ना<sup>७</sup>- -नाम्  
वाश्रौ १, ६, ४, ८<sup>१</sup>.

प्रत्यक्-शिरस्<sup>७</sup>- -रसम् शाश्रौ  
४, १७, ११; काश्रौ ६, ५, १५;  
आपश्रौ ७, १६, ५<sup>९</sup>; वाश्रौ १, ६,  
५, २<sup>९</sup>; वंश्रौ १०, १३ : १०<sup>९</sup>;  
हिश्रौ ४, ३, ५२<sup>९</sup>; आश्र १, ११,  
१०; भाश्र २, १६ : ७<sup>९</sup>; हिश्र २,  
१५, ४<sup>९</sup>.

प्रत्यक्शिरसी- -सीम्<sup>९</sup> हिपि  
५ : १; द्राश्र ३, ४, ६.

प्रत्यक्-शी(र्व >) षी<sup>७</sup>- -षीम्  
कौसू ४४, १३<sup>९</sup>.

प्रत्यक्-संस्थ<sup>९</sup>- -स्थम् द्राश्रौ ५,  
२, १४; लाश्रौ २, ६, ८; निसू.

प्रत्यक्-सामन्- -न्नः वौश्रौ  
२६, १६ : ११.

प्रत्यक्-स्थल<sup>७</sup>- -लम् कप्र ३, १,  
१९.

प्रत्यग्-अप्र, प्रा<sup>७</sup>- -अम् कप्र  
३, १, १९; -प्राभिः निसू १, ११ :

२४; -प्राप् माश्रौ १, १, १, २२.

प्रत्यग्-अपवर्ग<sup>७</sup>- -र्गम् आपश्रौ  
१, २५, १५; २, ९, २; माश्रौ;

-र्गाणि आश्रिण्य १, २, २ : २७;  
हिश्र २, १९, ७.

प्रत्यग्-अर्थ- -र्थस्य अप १, ३५,  
२.

प्रत्यग्-आत्मन्<sup>७</sup>- -त्मनि मीसू  
३, ७, २०.

प्रत्यग्-आवृत्त- -त्तः वौश्रौ २४,  
२८ : २; जैश्रौ १३ : १२; २१.

प्रत्यग्-आशिस्- -शिपः आपश्रौ  
४, १, ३; वाश्रौ १, १, २, १२;

वैश्रौ ३, १ : ७; हिश्रौ ६, १, ८;  
-शिपम् आपश्र ११, ४; -शीः  
वौश्रौ २०, २ : २७.

प्रत्यग्-उत्तर<sup>१</sup>- > १-शिरस्<sup>७</sup>-  
-राः वैध ३, १, ४.

प्रत्यग्-उदञ्च्<sup>१</sup>- -ञ्च् आश्रौ  
१, ११, १०; २, ६, ४xx.

१प्रत्यगुदीची<sup>१</sup>- -चीः  
काश्र ११, १.

प्रत्यगुद्गन्-ञीव<sup>७</sup>- -वम्  
हिश्रौ २, ७, ११; -वे आपश्रौ १,  
७, १०.

२प्रत्यग्-उदीची<sup>१</sup>- -चीम् द्राश्र  
४, २, ७.

प्रत्यग्-ञीव<sup>७</sup>- -वम् काश्रौ २,  
४, ३; वाश्रौ १, २, ४, ४२<sup>९</sup>.

प्रत्यग्-इक्षिण<sup>१</sup>-तस् (: ) काश्रौ  
२, ७, १.

प्रत्यग्-इक्षिणा<sup>१</sup> आश्रौ १, ३,  
३१; वाश्रौ १, १, ५, ७xx.

प्रत्यग्इक्षिणा-प्रवण- -णम्  
आश्र ४, १, ८.

प्रत्यग्-इक्षिणा<sup>१</sup>- -णाम् आश्रौ  
८, १४, १४.

प्रत्यग्-इ(ण्ड >) ण्डा<sup>७</sup>- -ण्डाम्  
शाश्रौ २, ९, १४; वाश्रौ १, ३,  
३, ३०.

प्रत्यग्-इ(शा >) श<sup>७</sup>- -शेन  
आश्रौ ६, १०, ६.

प्रत्यग्-द्वाद्, रा<sup>७</sup>- -रम् माश्रौ ६,  
१, ७, १; हिश्रौ ७, १, २९; गोश्र  
४, ७, १७; -राः माश्रौ ६, १, ८,  
१०; -राणि आश्रिण्य २, ६, ३ :

६; वैध २, ५, १८.

१प्रत्यग्-मिपञ्च्<sup>७</sup>- -पक् अप  
१, ४१, ३; अशां ११, ३.

प्रत्यग्-वृत्त- -त्तानि कौसू १२४,  
५.

प्रत्यग्-मुख<sup>७</sup>- -खः आश्रौ ३,  
१२, १८; काश्रौ ४, १३, ३; ८,  
६, १७; आपश्रौ; -खम् काठश्रौ  
५५; वौश्रौ; -खस्य आश्र १,  
१०, १६; भाश्र १, ७ : २; -खाः  
आपश्रौ १३, ८, १०; वौश्रौ;

-खान् वैश्र ४, ३ : ९; -खाय  
पाश्र २, ३, ३; भाश्र १, ९ : ५;

-खे वाश्रौ २, २, ४, १७; हिश्रौ

a) = एकाह-विशेष-। b) विप.। वस.। c) = साम-विशेष-। वस.। d) पामे. पृ १६९३ पृ द.।

e) पामे. पृ १६९३ पृ द.। f) पामे. पृ १६९३ पृ द.। g) उप. = समाप्ति-। h) कस.। i) = वायव्य-

कोण-। वस.। j) विप. (२अप्- )। k) पामे. पृ १६९३ पृ द.। l) = नैर्ऋती- दिश-। वस.। m) = नक्षत्र-विशेष-।

३,४,३६; -स्त्रिभ्यः पाठ २,१०, १८; -स्त्री काश्रौ ९,७,२; ११,१. प्रत्यङ्मुखी- -स्त्री काश्रौ ५, ५,१०; वैश्रौ ८, १२ : ५; माश्रु १, ८, २; -स्त्रीः अशां ५, ८; -स्त्रीम् काश्रौ ७, ८, १९; माश्रौ; -रुयाः शांश्रु १, १३, १; भाश्रु १, १५ : २; हिश्रु १, २०, १. प्रत्य(ति/अ)ञ्, ङ्च्, प्रत्यनक्ति काश्रौ २, ८, १६; वैश्रौ १, १६ : १५; १७ : ६; ११××; भाश्रौ; प्रत्यङ्क्तः वैश्रौ ५, ८ : ३१; †प्रत्यनक्ति आपश्रौ २, १९, ६; वैश्रौ; प्रत्यञ्चयात् आपश्रौ २१, ८, १०; वैश्रौ २०, १२ : १०. प्रत्य( ति-अ )ज्य आपश्रौ. २, ११, ३; वैश्रौ. प्रत्य(ति-अ)ङ्गन<sup>a</sup>- -नः<sup>b</sup> वैश्रौ १, १७ : २; -ने वैश्रौ २०, १२ : १०. प्रत्य(ति-अ)जिर- पा ६, २, १९३. प्रत्य(ति-अ)ति/क्रम्, प्रत्यतिक्रामति वाश्रौ १, ३, ४, १३. प्रत्यति-क्रम्य आपश्रौ १४, ८, ९. प्रत्य(ति-अ)ति/हृ, प्रत्यतिहारयेत् गोश्रु ४, ३, ३०. प्रत्य(ति-अ)धिकरण<sup>c</sup>- -णम् पावा २, ४, १. प्रत्य( ति-अ )धिदेवता<sup>d</sup>- -ताः जैश्रु २, ९ : १८. प्रत्य(ति-अ)धी(धि/इ), प्रत्यधीयते वैश्रौ २४, १५ : ९. प्रत्यधी( धि-इ )ल्य वैश्रौ २०, १७ : २६. प्रत्य(ति-अ)नन्तर<sup>e</sup>-त्व- -त्वात्

वौध २, २, ६९; ७२. प्रत्य(ति-अ)नीक<sup>f</sup>- -केषु वौश्रौ २०, २६ : २१. प्रत्य( ति-अ )नुवाक<sup>g</sup>- -कम् काश्रु ५२, ७. १प्रत्य(ति-अ)न्त<sup>h</sup>- -न्तात् द्राश्रौ २, १, २२; लाश्रौ १, ५, १८××. २प्रत्य(ति-अ)न्त- -न्तान् कौश्रु ३४, १७; -न्तेषु शंश्रु २५१<sup>h</sup>. प्रत्य(ति-अ)न्न<sup>c</sup>- -न्नम् वाश्रौ ३, ४, २, ४. प्रत्य(ति-अ)प/कृष् > प्रत्यप-कर्ष- -र्षः निस्रु २, १३ : ३९. प्रत्य(ति-अ)प/क्रम्, प्रत्यपक्रामति वाश्रौ १, १, ४, २३. प्रत्य(ति-अ)पा(प/अ)न्, प्रत्यपा- निति भाश्रु १, २० : ५. प्रत्य(ति-अ)पि/सृज्, प्रत्यपिसृजति आपश्रौ ७, १९, ७. प्रत्यपि-सृज्य आपश्रौ १, १०, १४; ७, १५, ३; हिश्रौ २, ७, ५६. प्रत्य(ति-अ)पो(प/ऊ)र्ण, प्रत्य- पोर्णुते<sup>i</sup> वैश्रौ ६, १५ : १०; २५, ८ : १६; वैश्रौ १२, १९ : १२; हिश्रौ १०, ३, २५. प्रत्य(ति-अ)वृद्<sup>c</sup>- -वृद्धम् कप्र ३, ८, १७; विध ५९, ९. प्रत्यावृद्धक<sup>j</sup>- -कम् कप्र ३, ५, ७; १४. प्रत्य(ति-अ)भि/घृ, प्रत्यभिधारयति आपश्रौ २, २१, ५; भाश्रौ २, १४, ६××; माश्रौ; प्रत्यभिधार- येत् वाश्रौ १, १, १, ३५; हिश्रौ. प्रत्यभि-धारण- -णम् काश्रौ १, ९, ११; कौश्रु १, ८, २२.

प्रत्यभि-वार्य आपश्रौ २, १४, १३××; भाश्रौ. प्रत्य(ति-अ)भि/चर्, प्रत्यभिचरति शांश्रौ १४, २२, २३; वैश्रौ १३, १५ : ३. प्रत्यभि-चरत्- -रन्तम् वैश्रौ २३, २ : १२. प्रत्य( ति-अ )भि/नन्द्, प्रत्यभि- नन्दयन्ति विध १९, २३. प्रत्य(ति-अ)भि/मिथ्, मेथ्, प्रत्य- भिमिथति आश्रौ १०, ८, ११; १३; शांश्रौ १६, ३, ३७; प्रत्य- भिमिथन्ति शांश्रौ १६, ४, ५; १३, ११; प्रत्यभिमेथेषुः लाश्रौ ९, १०, ४; ६. प्रत्यभि-मेथन- -ने शांश्रौ १६, ४, ६. प्रत्य( ति-अ )भि/मृच्, प्रत्यभि- मृशीत वैश्रौ २०, २५ : २४. प्रत्यभिमृशते वैश्रौ १, २ : १३; ३, २१ : ११××; वैश्रु; प्रत्य- भिमृशति आपश्रौ १४, २१, ५; वैश्रौ ७, १८ : ७××; भाश्रौ; प्रत्यभिमृशन्ते वैश्रौ ७, १५ : १२; १७ : १६××; प्रत्यभिमृ- शन्ति वैताश्रौ १९, १८; प्रत्यभि- मृशेत् आपश्रु १३, ६; प्रत्यभि- मृशेरन् गोश्रु ३, ८, १८. प्रत्यभि-मृशन<sup>a</sup>- -नः<sup>b</sup> वैश्रौ १५, ३६ : १७; २१, ४ : २; ३; -नाः<sup>b</sup> वैश्रौ १०, ५९ : ६; ११, १३ : ७; १५, १८ : २०; ३६ : १७; १७, २ : ३; -ने वैश्रौ २१, २० : २४; द्राश्रौ ५, १, २०; लाश्रौ २, ५, १६; -नौ<sup>b</sup> वैश्रौ १२, १६ : १९; १८ : २३.

a) उप. भावे करणे च कृत् । b) =मन्त्र-विशेष- । c) अस्र. । d) प्रास. । e) पूष. =अत्यन्त- । f) =कोण- । g) =यावदन्तम् । h) =सीमान्त-प्रदेश- । i) सप्र. आपश्रौ १०, २६, १७ अपोर्णुते इति पाठे. । j) तात्रभविके ष्वि उप. वृद्धिः उस्. (पा ७, ३, २०) ।

प्रत्यभिमर्शन-मन्त्र- न्त्रः  
भाश्रौ ६, १६, १८.  
प्रत्यभि-मृश्य आपश्रौ ७, २, ९××;  
वैश्रौ.  
प्रत्य( ति-अ )भि √रुह > प्रत्यभि-  
रूढ- -ढम् हिश्रौ १३, ८, ४४.  
प्रत्य( ति-अ )भिलेख्य-चिरोघ- -घे  
वाध १६, १५.  
प्रत्य( ति-अ )भि √वद्, प्रत्यभिवदेत्  
आपध १, १४, २०; हिघ १, ४,  
४९.  
प्रत्यभि-वाद- -दः वौघ १, २, ४७;  
-इम् वाध १३, ४६; -दे पा ८,  
२, ८३.  
प्रत्य( ति-अ )भि √प (<स)ञ्ज्, प्रत्य-  
भिपजति काठश्रौ १२२.  
प्रत्य( ति-अ )भि-हिं √कृ, प्रत्यभिहि-  
ङ्कुर्वन्ति आपश्रौ २०, १३, ७;  
हिश्रौ १४, ३, १२.  
प्रत्य( ति-अ )भ्य(भि-अ)नु √ज्ञा >  
प्रत्यभ्यनु-ज्ञा- -ज्ञा आगृ ४, ७,  
१९.  
प्रत्य( ति-अ )मिञ्- -त्रम् वौश्रौ १४,  
१८ : २.  
प्रत्य( ति-अ )य- , १प्रत्य( ति-अ )यन-  
प्रमृ. प्रती( ति √इ ) द्र.  
२प्रत्य( ति-अ )यन- -नम् वैश्रौ १०,  
१ : १; विघ ५९, ५.  
प्रत्य( ति-अ )र्क- -कम् वैध २, १०, २.  
प्रत्य( ति √अ )र्च्, प्रत्यर्च आपश्रौ ६,  
२१, ११.  
१प्रत्य( ति-अ )र्थ- -र्थम् पावा १, २,  
६४<sup>१</sup>; मीस् ६, १, ३××.  
२प्रत्य( ति-अ )र्थ- -र्थः निस् २, ३ :  
२२.

प्रत्य( ति-अ )र्ध- , प्रत्यर्ध-पुर<sup>० d</sup>- पा  
६, २, १९३.  
प्रत्य( ति-अ )र्धि- -ता- -ताम् निस् ८,  
११ : ७.  
प्रत्य( ति-अ )लं √कृ, प्रत्यलं कुर्वति  
आपध १, ३२, ६; हिघ १, ८,  
४८.  
प्रत्य( ति-अ )व √दो (अवखण्डने),  
प्रत्यवघेत भाश्रौ ७, १६, ६.  
†प्रत्यवदास्यामि आपश्रौ २,  
१८, ९; वौश्रौ १, १६ : १४;  
भाश्रौ २, १७, ९; माश्रौ.  
प्रत्य( ति-अ )व √धा, प्रत्यवदधाति  
वौश्रौ १०, १८ : ६; वैश्रौ १८,  
११ : १६; हिश्रौ २, ७, ५८××;  
प्रत्यवदध्यात् वौश्रौ २२, ३ :  
२७.  
प्रत्यव-धाय शाश्रौ ४, ३; आपश्रौ.  
प्रत्य( ति-अ )व √नी > प्रत्यव-नीय  
वौश्रौ ६, ३ : २२; १०, १२ :  
१५; भाश्रौ.  
प्रत्य( ति-अ )व √भुज् (कौटिल्ये)  
प्रत्यव-भुज् कौस् २०, २४.  
प्रत्य( ति-अ )व √मृज् > प्रत्यव-मृज्य  
माश्रौ २, २, २, ९.  
प्रत्य( ति-अ )वयव- -वन् पावा १,  
१, १.  
प्रत्य( ति-अ )व √रुह > रोपि, प्रत्य-  
वरोहते वैश्रौ १७, १५ : ७;  
प्रत्यवरोहति शाश्रौ १६, १७, ७;  
आपश्रौ १७, १९, ११<sup>१</sup>; १८, ५,  
२०; वौश्रौ; कौगृ ३, १, १०<sup>१</sup>;  
प्रत्यवरोहन्ति शाश्रौ १६, १८,  
१६; पागृ ३, २, ६; ११; वौगृ  
१, १, ११; प्रत्यवरोह आश्रौ ३,

१०, ८<sup>१</sup>; प्रत्यवरोहाम पागृ ३,  
२, १०; प्रत्यवरोहेत् आपश्रौ ६,  
१३, ८××; वौश्रौ; प्रत्यवरोहेम  
मागृ २, ७, ४<sup>१</sup>.  
प्रत्यवरोह वौश्रौ १८, ४५ :  
२८.  
प्रत्यवरोपयन्ति जैगृ १, २२ : ४.  
प्रत्यव-रुह आपश्रौ १७, १३, ६;  
२३, ११; १९, १०, २; वाधुश्रौ.  
प्रत्यव-रूढ- -ढः आपमं २, १८,  
२; -ढम् आपश्रौ २२, १०,  
६; हिश्रौ १७, ४, २४.  
प्रत्यवरूढ-पर्या( य )या<sup>h</sup>- -या  
निस् १, १० : २२.  
प्रत्यव-रोक्ष्यत्- -क्ष्यन् भागृ २, २ :  
१४.  
प्रत्यव-रोप्य जैगृ १, २२ : ६.  
प्रत्यव-रोह<sup>1</sup>- -हः लाश्रौ ९, १२, १६;  
निस् १०, १२ : १०; या ७, २३;  
२४; -हात् कौगृ ४, २, ३<sup>१</sup>;  
-हान् काश्रौ १८, १, ५; आपश्रौ;  
-हे निस् २, ९ : ३४; -हेण  
वाश्रौ १, ३, ७, १०<sup>२</sup>; लाश्रौ ८,  
५, २५; वृदे १, १०२; -हेभ्यः  
काश्रौ १८, १, ४; वाश्रौ २, २,  
३, ५; -हैः वाश्रौ १, ३, ६, ७.  
प्रत्यवरोह-संज्ञक<sup>h</sup>- काः शुअ  
२, २६०.  
प्रत्यवरोहा( ह-अ )र्थ- -र्थे निस्  
३, ९ : ४५.  
प्रत्यव-रोहण- -णम्<sup>h</sup> वौश्रौ २४, ४ :  
३; आगृ २, ३, १; वौगृ; -णात्  
आगृ २, १, १४; शांश्रौ ४, १५,  
१९<sup>१</sup>; -णे शाश्रौ १६, १७, ८.  
प्रत्यवरोहण-तस् (ः) वौश्रौ ११,

a) प्राप्त. > पस. । b) अस्त. । c) प्राप्त. । d) पृ ३६७ m द्र. । e) वैप १ द्र. । f) पाभे.  
पृ ३९७ b द्र. । g) पाभे. वैप २, ३खं उपावरोह तैत्रा २, ५, ८, ८ टि. द्र. । h) विप. । वस. । i) भाप., नाप.  
(मन्त्र-). j) सपा. °हान् <> °हणान् इति पाभे. । k) = पाक्यज्ञसंस्था- । अचिकरणे कृत प्र. ।



१२: ५; १८, १७: २७; २२,  
१५: ७.  
प्रत्यवरोहणा(ण-अ)भिवादन-  
ने लाश्रौ ८, १२, २.  
प्रत्यवरोहणीय<sup>०</sup>- -य: शांश्रौ  
१४, ११, १; वैताश्रौ ३६, १०;  
-येन आपश्रौ १८, ७, १७; वौश्रौ.  
प्रत्यव-रोहन्- -हन् आपश्रौ १६,  
२१, १४.  
प्रत्यव-रोहिन्- -हिण: निसू १,  
१०: २१; -हीणि लाश्रौ ९,  
१२: १५; निसू १, ६: १३.  
प्रत्यवरोहिणी- पाग ४, १, ४१.  
प्रत्यव-रोह्य आपश्रौ १, १८, ४.  
प्रत्य(ति-अ)व ✓सिच, प्रत्यव-  
सिच्यन्ते आपश्रौ १८, १३, ८.  
प्रत्य(ति-अ)व ✓सुज, प्रत्यवसुजति  
माश्रौ १, ३, ४, १४; ८, ४,  
२१; २, ३, ३, २२.  
प्रत्य(ति-अ)व ✓सो, प्रत्यवस्यति  
आपश्रौ ९, १, २२; प्रत्यवस्येत्  
वौश्रौ २१, २६: १६; २२, १७:  
११; हिश्रौ १४, ६, १३××.  
प्रत्यव-सान- -ने वौश्रौ २१, २६:  
१६; २२, १७: ११.  
प्रत्य(ति-अ)व ✓स्था, प्रत्यवस्था-  
पयति माश्रौ ४, २, ३३.  
प्रत्यव-स्थाय माश्रौ २, ३, २, ३२; ३,  
१८××; वाश्रौ १, १, ५२.  
प्रत्यव-स्थित- -ताय वौश्रौ २६,  
९: १४.  
प्रत्य(ति-अ)व ✓ह, प्रत्यवहरति हिश्रौ  
२, १, १२; प्रत्यवहरेत् गो २, ५.  
प्रत्यव-हत्य गौघ ११, २४; २७.

प्रत्य(ति-अ)वे (व ✓इ) > प्रत्यवा  
(व-आ)य- -य: वैश्रौ २०, १:  
२; आपध २, १३, ८; हिघ २,  
३, ८; -यात् काश्रौ १, ६, ८.  
प्रत्यवे(व-इ)त- -त: निसू ३, ११:  
२०.  
प्रत्यवेत-स्वर- -राणाम् लाश्रौ  
७, ८, १; ३.  
प्रत्य(ति-अ)वे(व ✓ई) ऋ, प्रत्यवेक्षते  
आपश्रौ २, १, ५, वौश्रौ १, २:  
७××; भाश्रौ; प्रत्यवेक्षेत वाधूश्रौ  
३, १०: ४; २३: ३; ४; वैश्रौ.  
प्रत्यवे(व-ई)क्षितव्य- -व्या: शंघ  
२५१.  
प्रत्यवे(व-ई)क्ष्य आपश्रौ २, २, ३.  
प्रत्य(ति-अ)व ✓श (व्याप्तौ) > प्रत्य  
(ति-अष्ट) > ष्टा- -ष्टा कौसू  
१०६, ७<sup>३</sup>फं.  
प्रत्य(ति-अ)व ✓सू (क्षेपणे), प्रत्यस्यति  
आपश्रौ ६, १५, ५; १०, २८,  
१××; वौश्रौ; माश्रौ १, २, २,  
८<sup>०</sup>; २५<sup>०</sup>; शांश्रौ १, ८, २१<sup>०</sup>;  
प्रत्यस्यन्ति माश्रौ १, ७, ४, ४२,  
प्रत्यस्येत् आपश्रौ १५, १९, २;  
वौश्रौ २३, २: २५××; भाश्रौ.  
प्रत्य(ति-अ)सन- -नम् वौश्रौ २१,  
३: ७; २३, १६: २१; माश्रौ;  
-ने भाग ३, १८: ७.  
प्रत्यसन-काल- -ले भाश्रौ ६,  
१४, १६; हिश्रौ ३, ७, ११५.  
प्रत्य(ति-अ)सित्वा आश्रौ ८, १२,  
१४, आपश्रौ.  
फं प्रत्य(ति-अ)स्त- -स्त<sup>०</sup> आपश्रौ  
१०, २८, १; वौश्रौ ६, १५: ३०;

८, २०: २२; भाश्रौ; -स्तम्  
काश्रौ १५, ५, २४<sup>१</sup>; वाश्रौ.  
प्रत्य(ति-अ)स्य शांश्रौ २, ७, १२;  
वौश्रौ; कौश्र १, ४, ५<sup>१</sup>.  
प्रत्य(ति-अ)ह<sup>०</sup>- -हम् काश्रौ १, ७, ७;  
२२, ७, १४××; कायउ; हिघ  
२, ५, १५६<sup>१</sup>.  
प्रत्यहा(ह-अ)भ्यस्त- -स्तै: विघ  
४६, २०.  
प्रत्या (ति-आ) ✓क्रम, प्रत्याक्रामति  
आपश्रौ २, १४, १०; भाश्रौ २,  
१३, १५; वैश्रौ ६, ३: ११.  
प्रत्या-क्रम्य आपश्रौ २, १७, ६; १८,  
९××; काठश्रौ.  
प्रत्या(ति-आ) ✓ख्या, प्रत्याख्यास्यति  
वौश्रौ ६, ७: २०<sup>१</sup>फं; भाग १०,  
१०: १.  
प्रत्या-ख्यात- -त: वृदे ५, ६०.  
प्रत्या-ख्यान- -नम् वृदे ७, १५३.  
प्रत्या-ख्याय या २, २६.  
प्रत्या-ख्यायम् वौश्रौ १४, ३: १८,  
२०××.  
प्रत्या-ख्येय- -य: वाधूश्रौ ३; ९२:  
२.  
प्रत्या(ति-आ) ✓गम्, प्रत्याजगाम  
निसू ८, ४: ३२.  
प्रत्या-गत, ता- -त: शंघ ३०३; -ता:  
गोश्र ३, ६, २; द्राश्र ३, १, ४३;  
-तान् काश्र ४५, ११; -ताय द्राश्र  
३, १, ३०; -तासु शांश्र ३, ९, ३;  
-ते काश्रौ २१, ४, ७.  
प्रत्या-गत्य वैघ २, ११, १.  
प्रत्या(ति-आ) ✓गृ, गृ (शब्दे), प्रत्यागृ-  
णाति शांश्रौ १७, ४, ६;

a) = क्रतु-विशेष-। तदस्यप्रयोजनमित्यर्थे छ > ईयः प्र. उत्सं. (पा ५, १, १११)। b) सप्र. वाश्रौ १, २, ४, ४२ अमिभुजन् इति पाभे.। c) न प्रत्यस्यति इत्यस्य स्थाने सप्र. वाश्रौ १, २, ४, ६१ अमिभुजन् इति पाभे.। d) सपा. ष्यति <> ष्य इति पाभे.। e) पाभे. वैप १, २१५४ & द.। f) पाभे. वैप १, १८१६ f द.। g) अस. वा. क्रिवि.। h) पाभे. पृ २३३ ० द.।  
वैप ४-नु-३१

वौश्रौ २६, १४: ६; वाधूश्रौ ४,  
२६: २४; १००: १६; प्रत्या-  
गुणन्ति वौश्रौ १८, २९: २२;  
प्रत्यागृणीतात् शांश्रौ १७, १४,  
३२.

प्रत्यागर्तुम् वौश्रौ १८, २९: २०.

प्रत्या(ति-आ) √ चक्ष्, प्रत्याचष्टे  
शांश्रौ ५, १, १०; ऋश्र; प्रति...  
भाचष्टे भागृ २; २५: १५१; प्रत्याचचते हिश्रौ १७, १, १४;  
प्रत्याचक्षीत काश्रौ २२, १, ३२;  
आपश्रौ १७, २६, १९; वैश्रौ;  
प्रत्याचक्षीयाताम् आपध २, ४,  
१३; हिघ २, १, ६६.  
प्रत्याचचक्षे या ११, ३४.  
प्रत्याचक्षि वृष्टे ५, ७७.

†प्रत्या-चक्षण- -णानाम् आपध १,  
३, २६; हिघ १, १, १०१.

प्रत्या(ति-आ) √ च्छिद् > प्रत्या-  
च्छेद्य वौश्रौ १४, १९: २४<sup>१</sup>;  
आमिष्ट ३, ६, १: १२<sup>१</sup>; वौषि  
१, ८: ११.

प्रत्या-जिहीर्षमाण- प्रत्या(ति-आ)  
√ ह द्र.

प्रत्या( ति-आ ) √ तप् > प्रत्या-  
(ति-आ)ताप- -पे काश्रौ १५,  
४, ३३.

प्रत्या(ति-आ) √ तृद् > प्रत्या-तृण-  
-णम् माश्रौ ६, १, ७, १२.

प्रत्या( ति-आ ) त्म<sup>१</sup> - > त्म-वचन-  
-न्म् पावा १, १, ५०.

प्रत्यात्मिक<sup>१</sup> - -कान् शांश्रौ ६, ६, १२.

प्रत्या( ति-आ ) √ दा, प्रत्यादत्ते शांश्रौ  
७, २५, १४; हिश्रौ ७, २, ७४;  
या ५, १९; प्रत्याददीत वौश्रौ

२२, ४: ९; १०××; वौश्रु.

प्रत्या-दान- -ने उस् ३, ५.

प्रत्यादाना( न-आ ) दि- -दि  
आश्रौ ५, १५, ९.

प्रत्यादाना( न-आ ) वसान- -नयो:  
ऋप्रा १०, ५; उस् ३, ६.

प्रत्या-दाय आश्रौ ६, ४, ४; शांश्रौ.

प्रत्या(ति-आ)दित्य<sup>१</sup> - -त्य: अप ६१,  
१, २६; -त्यम् अप ७०<sup>२</sup>, २३, ११

प्रत्या(ति-आ) √ धाव् ( गतौ ), प्रत्याधा-  
वन्ति आपश्रौ ६, २५, ४<sup>२</sup>१.

प्रत्या-धावत्- -वत: आपश्रौ १८,  
४, २१.

प्रत्या(ति-आ) √ नह्, प्रत्यानहति  
आपश्रौ १०, २७, १०; वौश्रौ ६,  
१५: २६; भाश्रौ; प्रत्यानहत्  
वौश्रौ २१, १२: २०.

प्रत्या-नहन- -ने वौश्रौ २१, १२: २०.

प्रत्या(ति-आ) √ नी, प्रत्यानयति शांश्रौ  
२, ७, ११; वौश्रौ.

प्रत्या-नीच शांश्रौ २, ८, १०; आपश्रौ;  
कौश्र १, ७, ११<sup>१</sup>.

†प्रत्या(ति-आ)नीक<sup>१</sup> - -काय शांश्रौ १,  
११, ४<sup>१</sup>.

प्रत्या(ति-आ) √ पद् > प्रत्या-पत्ति-  
-सि: वाध १५, १९; आपध;  
पावा ६, ३, ३३; -सौ. पावा ८,  
४, ६८.

प्रत्या(ति-आ) √ प्याय् > प्रत्या-प्या-  
ययत्- -यन्त: निस् ४, ९: २२.

प्रत्या(ति-आ) √ मन्, ज्ञा, प्रत्यामनेत्  
मास् ६, ४, ३१.

प्रत्याज्ञायु: ऋप्रा १५, १५.

प्रत्या-ज्ञात- > त्-प्रायश्चित्त<sup>१</sup>-  
-त्ता: वौश्रौ २०, २३: ११.

प्रत्या-ज्ञान- -न्म् ताश्रौ ९, ७, ४;  
-नात् आपश्रौ २४, ४, २.

प्रत्या-ज्ञाय- -य: शांश्रौ १४, ५१,  
६; आपश्रौ; -या: निस् २, ८: ३;  
-येन भाश्रौ ६, १५, ६.

प्रत्याज्ञाय-प्रतिषेधा ( ध-घ ) र्थ-  
लोप- -पै: वाश्रौ १, १, १, ६७.

प्रत्या-यत्- प्रभृ. प्रत्ये ( त्या √ इ ) द्र.

प्रत्या( ति-आ ) √ या > प्रत्या-याय  
आपश्रौ २१, १९, १७; हिश्रौ.

प्रत्या(ति-आ) √ रभ्, रम् > प्रत्या-  
रभ्य माश्रौ ६, २, ४, २.

१ प्रत्या-रम्भ- -म्भ: कौस् १४१,  
४१<sup>२</sup>; उस् ५, ४; ७, २०<sup>३</sup>; -म्भे  
पा ८, १, ३१.

प्रत्यारम्भ-निवात- -तेषु अप  
३४, १, १.

प्रत्यारम्भन्- -म्भी माशि ३, ७.

२ प्रत्या(ति-आ) रम्भ<sup>१</sup> - -म्भम् मीस्.  
११, १, २०.

प्रत्या( ति-आ ) √ रुह् > प्रत्या-रुप्य  
आपश्रौ १२, ९, ८.

प्रत्या( ति-आ ) र्वपुर<sup>१</sup> - पा ६, २,  
१९३.

प्रत्या( ति-आ ) √ लम् > प्रत्या-ल-  
( व्व > ) व्वा- -व्वाम् आश्रौ  
१, ७, ५.

प्रत्या(ति-आ) √ लिख्, प्रत्यालिखत्.  
आपश्रु १२, ३; हिश्रु ४, २५.

प्रत्या-लिख्य वौश्रु १९: ४.

प्रत्या(ति-आ) √ वप्, प्रत्यावपति  
माश्रौ ६, १, ४, ३४; वाश्रौ २, १,  
३, ३५; नागृ; प्रत्या-वपन्ति कौस्  
२१, ४.

प्रत्या( ति-आ ) √ वृत्, †प्रत्यावर्तय:

a) यथाक्रमं प्रत्याच्छेद्याम्, प्रच्छेद्येन इति पाठौ? यनि. शोध: (तु. वौषि.) b) अस्. । c) मत्वर्थीप् ठन् प्र. ।  
d) = सूर्यप्रतिविम्ब-सदृश- । प्रास. । e) परस्परं भासे. । f) विप. । प्रास. उप. स्वार्थे प्र.; वैतु. Old. नाप.  
इति? । g) विप. । वस. । h) तु. सस्थ. टि. यथापदम् । i) म्भफ<sup>१</sup> इति अच्यु. । j) प्रास. । पृ २६७ m द. ।

आपश्रौ २०, १६, १४; हिश्रौ.  
 प्रत्या(ति-आ)√व्रज्, प्रत्याव्रजेत्  
 द्राश्रौ १२, १, ७; १४, ४, ३;  
 लाश्रौ ४, ९, ४; ५, ८, ३; ९, १,  
 २४; प्रत्याव्रजेयुः द्राश्रौ ११,  
 ४, १८; १३, ३, ११; लाश्रौ.  
 प्रत्या-व्रजत्- -जन् जैश्रौ ५ : १५;  
 द्राश्रौ २, २, १५; लाश्रौ १, ६, ११.  
 प्रत्या-व्रजि(त>)ता- -तायाम्  
 जैश्र १, २१ : १८.  
 प्रत्या-व्रज्य द्राश्रौ २, १, १५××;  
 लाश्रौ.  
 प्रत्या(ति-आ)√श्रु, प्रत्याश्रावयति  
 आपश्रौ २, १५, ४; ८, १५, ११;  
 वौश्रौ ५, १४ : ३××; भाश्रौ;  
 प्रत्याश्रावयेत् आश्रौ १, ४,  
 १३××; वौश्रौ ३, २१ : २९.  
 प्रत्या-श्रवण- -णात् काश्रौ ३, ३,  
 १४.  
 प्रत्या-श्राव- -वः शुप्रा ४, ८५†.  
 प्रत्या-श्रावण- -णम् आश्रौ २, १९,  
 १८; वैताश्रौ १, १०; ९, १२;  
 -णात् आपश्रौ २, १६, २; ७, २७,  
 ५; वाश्रौ १, १, ४७; हिश्रौ.  
 प्रत्या-श्रावित- -तः वैश्रौ ७, ६ : ४;  
 -ते काश्रौ ३, ३, १५; आपश्रौ  
 २, १६, २; १७; ४××; भाश्रौ.  
 प्रत्याश्रावित-वर्म- -र्मस्य हिश्रौ  
 २४, ४, ८.  
 प्रत्या-श्रुत- -तः वाश्रौ १, ३, ४, १८;  
 ६, ७; -ते वाश्रौ १, १, ४७.  
 प्रत्या(ति-आ)स्, प्रत्यास्व आपश्रौ  
 १२, ५, २†.  
 प्रत्या(ति-आ)सद्, प्रत्यासादयति  
 वाश्रौ १, ३, २, १०; ६, ४; २४.  
 प्रत्या-सन्न- -न्नः आपध २, १४, २;

हिध २, ३, १३; -न्नम् अप ५०,  
 ७, ५; -न्नस्य वैश्रौ २०, २३ : १.  
 प्रत्यासन्न-वन्धु- -न्धुः हिपि  
 २ : ३; २२ : ३.  
 प्रत्या(ति-आ)√सिच्, ज्च्,  
 प्रत्यासिञ्चति कौसू ९, ३; ५.  
 प्रत्या-सिच्य अप ४५, २, १९.  
 प्रत्या(ति-आ)√सु > प्रत्या-सारिन्-  
 पावा ३, २, ७८<sup>b</sup>.  
 प्रत्या-सुत्- -तेषु आपश्रौ १८, ५,  
 १; हिश्रौ १३, १, ५८.  
 प्रत्या(ति-आ)√सेच्, प्रत्यासेवेते या  
 ८, १५.  
 प्रत्या(ति-आ)ह, प्रत्याह आश्रौ ५,  
 ५, २६××; शाश्रौ.  
 प्रत्याहुः काश्रौ २०, ६, १९;  
 आपश्रौ.  
 प्रत्या(ति-आ)√हन्, णप्रत्याहन्ति  
 अप ४६, ६, ३; अत्र ८, १०५.  
 प्रत्या(ति-आ)हुति<sup>c</sup>- -ति आपश्रौ  
 १४, २९, ३; २४, ३, ६; काठश्रौ  
 ७०; भाश्रौ ३, १०, ११†; वैश्रौ.  
 प्रत्या(ति-आ)√ह्, प्रत्याहरति माश्रौ  
 २, ३, ३, १०; वाश्रौ १, २, ३, ३७;  
 हिश्रौ; या १४, ४; प्रत्याहरन्ति  
 शाश्रौ १५, १३, १५; अप ७०<sup>२</sup>,  
 ३, २××; प्रत्याहरेत् निसू ९,  
 ११ : ११; जैश्र २, ८ : ३;  
 प्रत्याहरेयुः लाश्रौ ९, १, १७.  
 प्रत्याहरिष्यत् निसू ९, ११ : १०.  
 प्रत्याहारयिष्यत् निसू ३, ११ :  
 २०.  
 प्रत्या-जिहीर्षमाण- -णस्य चाभ  
 १४ : ३.  
 प्रत्या-हरत्- -रन्तम् वैश्रौ ३, ७ :  
 १२.

प्रत्या-हार- -रः निसू ५, १ : १०;  
 ६, ३ : ४; -रे पाप्रवा ५, १६.  
 प्रत्याहार-ग्रहण- -णे पावा १,  
 १, ६९.  
 प्रत्याहारा(र-अ)नुबन्ध-  
 -न्धानाम् पाप्रवा ५, १६.  
 प्रत्या-हृत्, ता- -तः शाश्रौ १४,  
 ४१-४२, ४; -ता निसू ३, ११ : ६.  
 प्रत्या-हृत्य आश्रौ १, ७, ५; काश्रौ.  
 प्रत्या(ति-आ)√ह्वे, प्रत्याह्वयेते आपश्रौ  
 १२, २७, १२; वौश्रौ ७, १७ :  
 ४××; वैश्रौ.  
 प्रत्यु(ति-उ)क्ष्, प्रत्युक्षति आपश्रौ  
 १२, ८, ८; भाश्रौ २, ८, १;  
 वाश्रौ.  
 प्रत्यु(ति-उ)क्ष्य आपश्रौ २, ८, ३;  
 वौश्रौ.  
 प्रत्यु(ति-उ)च्√चर् > प्रत्युच्-चार्य  
 ऋप्रा १५, १३.  
 प्रत्युत्कान्तानुवाक- -काः चाश्र  
 १७ : १६.  
 प्रत्युत्था(ति-उद्√स्था), प्रत्युत्तिष्ठति  
 वाधूश्रौ ४, ८९ : ५; १४; वैश्रौ;  
 या १४, ३०; प्रत्युत्तिष्ठेत् माश्रौ  
 ६, २, ६, २५; वाश्रौ ३, १,  
 २, ४५; ४६; आपध.  
 प्रत्युत्-थान- -नम् भाग्निय ३, ९,  
 ३ : १५; वौपि २, ७, १४; विध.  
 प्रत्युत्थाना(न-आ)सन-वाक्-  
 सूनुता(ता-अ)नसूया- -याभिः  
 वाध ८, १२.  
 प्रत्युत्-थाय अप ४१, २, २; वाध १३,  
 ४१; आपध १, १४, ११†; १७;  
 वौध १, २, ४६; वैध १, ४, १,  
 प्रत्यु(ति-उद् >)त्√पत्, प्रत्युत्प-  
 तन्ति वाधूश्रौ ४, ९६ : ३१.

a) पाप्मे. वैप २, ३खं प्रत्युपतिष्ठासै काश ४, ९, ३, १४ टि. द्र. । b) तु. पाका. । c) अस्. ।  
 d) °वी इति पाठः? यनि. शोधः । e) तु. पाम. । f) सप्र. हिध १, ४, ४३ अप्युत्थाय (अभ्यु°) इति पाप्मे. ।

प्रत्यु(ति-उद् >) त्/पद्, प्रत्युत्पाद-  
येत् मौसू १०, ६, ७९.  
प्रत्यु(ति-उद् >) त्/सृञ्, प्रत्यु-  
त्सजेत् लाश्रौ १, १, २०; २, ११;  
प्रत्युत्सजेयुः हिश्रौ १७, ६, २८.  
प्रत्यु( ति-उ )द्-आ/व्रज्, प्रत्युदा-  
व्रजन्ति कौसू ६८, ३९; १४०,  
२०.  
प्रत्यु(ति-उ)द्-आ/ह, प्रत्युदाहरति  
भाश्रौ १, १०, ४.  
प्रत्यु(ति-उ)द्/इ (गतौ), ङप्रत्युदैव  
आश्रौ २, १९, ३२; शाश्रौ ३,  
१७, १; काश्रौ २५, ६, ७; अप्रा  
३, २, ५.  
प्रत्यु(ति-उ)द्/ऊह् > प्रत्युद्-ऊह्य  
आपश्रौ १२, ५, ७; वैश्रौ १५,  
७ : ४.  
प्रत्यु(ति-उ)द्/गम् > प्रत्युद्-गम्य  
विध २८, १९.  
प्रत्यु(ति-उ)द्/गृह्, प्रत्युद्गृहीयात्  
लाश्रौ ७, ८, १.  
प्रत्यु(ति-उ)द्/गै > प्रत्युद्-गीत-  
-तः लाश्रौ ७, ८, १८.  
प्रत्यु(ति-उ)द्/घृ (<ह) > प्रत्युद्-  
धार- -तः वाध १५, १७; २१.  
प्रत्यु(ति-उ)प/कृप् > प्रत्युप-कर्षम्  
माश्रौ २, २, २, ३०.  
प्रत्यु(ति-उ)प/क्रम्, प्रत्युपक्रामति  
माश्रौ १, ३, ४, २०; ३१; ८, ५, १.  
प्रत्यु( ति-उ )प/घा, प्रत्युपद्घाति  
वौश्रौ १०, २४ : १०; निस् ७,  
१० : १३.  
प्रत्यु(ति-उ)प/नम् > प्रत्युप-नत-  
-तम् भाश्रौ ७, ८, १२; हिश्रौ.  
प्रत्यु(ति-उ)प/नह् > प्रत्युप-नह-

-द्वे हिश्रौ ७, ३, ८०.  
प्रत्युप-नह्य आपश्रौ २१, ५, ५;  
हिश्रौ.  
प्रत्यु(ति-उ)प/लम्ब्, ङप्रत्युपल-  
म्बस्व वौश्रौ ७, ३ : ९×५; वैश्रौ.  
प्रत्यु(ति-उ)प्र/वद् > प्रत्युपो(प-उ)  
दि(त >)ता- -ता निस् ३, ९ :  
३८ङ्.  
प्रत्यु(ति-उ)प/विश्, प्रत्युपवेशयते  
आपध १, १९, १; हिध १, ५,  
१०३.  
प्रत्युप-विष्ट- -ष्टः आपध १, १९, १;  
हिध १, ५, १०३.  
प्रत्युप-वेशन- -नम् द्राश्रौ ४, ४, १०;  
लाश्रौ २, ४, ५.  
प्रत्यु( ति-उ )प/शी, प्रत्युपशेते  
निस् ६, ४ : ३.  
प्रत्यु(ति-उ)पलद्- -दम् काश्रौ २३,  
२, १८.  
प्रत्यु(ति-उ)प/स्था, प्रत्युपतिष्ठासै  
काश्रौ ९, ३, ३ङ्; प्रत्युपतिष्ठेत  
वौश्रौ २०, २३ : ३; ५×५.  
प्रत्युप-स्थान- -ने वौश्रौ २१, १२ :  
२६.  
प्रत्युप-स्थिति- > ण्ति-हेतुक-  
-कम् कागृउ ४३ : २०; ४५ :  
१०.  
प्रत्यु(ति-उ)प/स्पृञ् > प्रत्युप-स्प-  
र्शन- -नानि गोश्र १, २, ३१.  
प्रत्युप-स्पृश्य गोश्र १, २, २८; द्रागृ  
१, १, १२.  
प्रत्यु( ति-उ )प/हे, प्रत्युपह्यते  
आपश्रौ २४, १४, १५.  
प्रत्युप-हव- -नम् वैश्रौ १५, ३३ :  
१२ङ्.

प्रत्युप-ह्य शाश्रौ ७, ६, ९.  
प्रत्यु(ति-उ)पा(प-आ)/ऊ > प्रत्युपा-  
करण- -णे गोश्र ३, ३, १६.  
प्रत्यु(ति-उ)पा(प/आ)स्, ङप्रत्युपा-  
स्व माश्रौ २, ३, २, ९; प्रत्युपास्व  
हिश्रौ ८, १, ५८.  
प्रत्यु( ति-उ )पे (प/इ), प्रत्युपेयात्  
कौसू ४६, १८.  
प्रत्युपेयाय वौश्रौ १८, ४५ : ९.  
प्रत्युपा(प-आ)य- -यः अप २ : ६.  
प्रत्युपोदिता- प्रत्यु(ति-उ)प/वद् द्र.  
प्रत्यु( ति/उ )ञ्ज्, प्रत्युञ्जति वौश्रौ  
९, ५ : ३४.  
प्रत्यु(ति-उ)रस्- पा ५, ४, ८२.  
प्रत्यु(ति/उ)प्, प्रत्योपति वाश्रौ १,  
६, ५, २९; प्रति...ओपति वौश्रौ  
३, ९ : १५.  
ङप्रत्यु(ति-उ)ष्ट- -ष्टम् आश्रौ २,  
३, ९; काश्रौ; -ष्टा. माश्रौ १,  
२, १, २२ङ्; -ष्टाः आश्रौ  
२, ३, ९; आपश्रौ.  
ङप्रत्यु(ति-ओ)प(त >)न्ती-न्तीः  
आपश्रौ ४, ६, ४; भाश्रौ ४, ९,  
२; हिश्रौ.  
प्रत्यु(ति-उ)ष्ट- पा ६, २, १९३.  
प्रत्युह्य, प्रत्युह- प्रति/वह् द्र.  
प्रत्युप- पाउमोष्ट २, ३, १६७; -पः  
अप ४३, ५, ७; शंघ ११६ : ६३.  
प्रत्यु(ति/ऊ)ह् (प्रापणे), प्रत्युहते या  
२, ९; प्रत्युहति वौश्रौ १, १९ :  
१७; १४, २२ : १६; माश्रौ;  
प्रत्युहत् वाधूश्रौ ४<sup>५</sup>, २६<sup>५</sup> : ९;  
१०; १२; प्रत्युहन्<sup>५</sup> वाधूश्रौ ४,  
१००<sup>२</sup> : १३; प्रत्युह वाधूश्रौ  
४, २६<sup>५</sup> : ८; १०; १२; प्रति...

a) अस. समासान्तपृ टच् प्र. । वा. क्रिवि. । b) पाभे. वैप २, ३खं. प्रत्युपतिष्ठासै काश्र ४, ९, ३, १४  
दि. द्र. । c) विप. । वत्त. । d) विप. (निमित्त-). । e) पाभे. वैप १, १८२१ III द्र. । f) पाभे. वैप १,  
२१७० g द्र. । g) = वसु-विशेष- । व्यु. ? । h) = प्रत्यौ ( तु. संत्कर्तुः दि. ) ।

औहत् या २, ९<sup>क</sup>; प्रत्यूहेत्  
 वौश्रौ २०, १४ : ९.  
 प्रत्यू(ति-ऊ)हन- नम् शांश्रौ ४,  
 १५, ६; कौश्र ५, ४, ९.  
 प्रत्यू(ति-ऊ)हमान- नम् निसू ९,  
 २ : ४; -नाः निसू ९, ५ : ४.  
 प्रत्यू(ति-ऊ)ह्य आपश्रौ ६, ६, १०;  
 वौश्रौ; दाश्रौ ७, ३, ३<sup>द</sup>.  
 प्रत्यू(ति-ऊ)ह्य > प्रत्यू(ति-ऊ)त- नतः  
 या ५, १०; १५; ७, २१; -तम्  
 या २, २५; -तस्य या ३, ४;  
 -ताः या ४, २७.  
 ?प्रत्यूच्- न्यूचः या १३, ११<sup>२</sup>.  
 प्रत्यू(ति-ऊ)च्<sup>७०</sup>- चम् आश्रौ २,  
 १३, ९; ६, ४, २; काश्रौ.  
 प्रत्यू(ति-ऊ)तु<sup>७</sup>- तु काश्रौ २०, ८,  
 ३०; वैताश्रौ ३७, ८; आमिष्ट  
 १, ७, ४ : ९.  
 प्रत्यू(ति-ऊ)घ्, प्रत्यार्घि वृदे ७,  
 ७५.  
 प्रत्ये(ति-आ-इ), प्रत्यायन्ति शांश्रौ  
 ४, ६, १२; १५, ४××; आपश्रौ;  
 प्रत्ये(ति-आ-इ)तन<sup>६</sup> आश्रौ  
 ८, ५, १२<sup>क</sup>; प्रत्येयात् आश्रौ  
 २, ७, १०; ४, १०, १३; काश्रौ.  
 प्रत्यायत्- यन्तः आश्रौ ३, ६,  
 २५.  
 प्रत्या(त्या-अ)यन- नम् आपश्रौ  
 १९, ४, १०; हिश्रौ १३, ८, ४३;  
 -नौ<sup>०</sup> आपश्रौ १, ५, १; हिश्रौ

१, २, ५४.  
 प्रत्यायना(न-अ)न्त<sup>१</sup>- न्तान्  
 हिश्रौ ९, ३, ५४; १०, ५, ९.  
 प्रत्ये(त्या-इ)व्य आश्रौ १, ४, २; २,  
 ५, ३××; शांश्रौ.  
 प्रत्ये(ति-ए)क<sup>७</sup>- कम् शांश्रौ १५,  
 ५, ६; १७, ४, ८; वैश्रौ.  
 प्रत्येक-दान- नेन विध ६७,  
 ४६.  
 प्रत्येतव्य- तुम् प्रती(ति-इ) द.  
 ?प्रत्येत्यादि जैश्रौका १७७.  
 प्रत्ये(ति-ए)नस्<sup>६</sup>- नसि शांश्रौ ४,  
 १६, ११; कौश्र ५, ८, १०; पा  
 ६, २, २७; ६०; -नाः शांश्रौ ४,  
 १६, १०; कौश्र ५, ८, ९.  
 प्रत्ये(ति-ए)वयामस्त<sup>७</sup>- स्त आश्रौ  
 ८, ४, ११.  
 प्रत्योपन्ती- प्रत्यु(ति-उ)प् द.  
 †प्र-त्वक्षस्<sup>६</sup>- क्षसः आश्रौ ५, २०,  
 ६; शांश्रौ ८, ६, ४; ऋञ्ज २, १,  
 ८७.  
 ?प्रत्वर<sup>१</sup>- रः आज्यो ९, ४; -रम्  
 आज्यो ९, ७; -रे आज्यो १०,  
 ७; ११, ४; -रेषु आज्यो १०, १.  
 √प्रथ्, प्रथ्- √पृथ् द.  
 प्रथ<sup>१</sup>- थः ऋञ्ज २, १०, १८१.  
 प्रथन- √पृथ् द.  
 प्रथम, मा<sup>६</sup>- पाठ ५, ६८; पाग ४,  
 २, ६३<sup>क</sup>; -म जैश्रौप ९<sup>१</sup>; -मः  
 आश्रौ १, ५, १३; १६; २,

२, ४<sup>क</sup>; ११, ८<sup>क</sup>××; शांश्रौ;  
 आपश्रौ १२, २३, ८<sup>क</sup>; आपमं  
 १, ३, १<sup>क</sup>; पाग; या २,  
 २२<sup>क</sup>; १०, १०<sup>क</sup>; पा १, ४,  
 १०८; -मःऽमः काश्रौ १२,  
 २, ५; १५, २, १६; -मम्  
 आश्रौ १, २, १; २१××; १०,  
 ९, ५<sup>क</sup>; शांश्रौ; माग १, २२,  
 २<sup>क</sup>; गोश्र २, १, ६<sup>क</sup>; या  
 ३, ९<sup>क</sup>; ७, १४××; -मस्ऽ-  
 मम् शांश्रौ ९, २०, ६; काश्रौ,  
 -मया आश्रौ १, ९, १; शांश्रौ  
 ४, २, ३; १८, १, १०; आपश्रौ;  
 या ९, ८; पावा २, २, १८<sup>६</sup>;  
 -मयोः शांश्रौ १०, ९, १५××;  
 आपश्रौ; पा<sup>६</sup> ६, १, १०२; ७, १,  
 २८; -मस्मिन्<sup>१</sup> काग ८, २;  
 -मस्य आश्रौ २, १०, २२; ४, ६,  
 ३<sup>क</sup>××; शांश्रौ; आपश्रौ २०,  
 २३, ४<sup>क</sup>; वौश्रौ १५, २८ : १<sup>क</sup>;  
 हिश्रौ १४, ५, १३<sup>क</sup>; पा २, ४,  
 ८५<sup>७</sup>; ६, १, १; -मस्यऽमस्य निसू  
 ५, ११; १२; ३५; -?मस्या अथ  
 ५, ३; -मस्याः<sup>१</sup> आपश्रौ १६, २१,  
 २; -मस्यास्<sup>१</sup> आश्रौ ४, ८, १८;  
 वृदे ८, ९५; -मस्यै<sup>१</sup> वाधूश्रौ ४;  
 ५८ : ४, -मा आश्रौ २, १०,  
 २२<sup>२</sup>; ९, ११, १९; शांश्रौ;  
 काश्रौ ९, ११, १<sup>क</sup>; आपश्रौ  
 १६, १८, ७<sup>क</sup>; १७, २,

a) पांमे. पृ १६८१। द्र.। b) अस.। c) समासान्तः षः प्र.। d) वैप १ द्र.। e) = मन्त्र-  
 विशेष-। f) विप.। वस.। g) प्रास. वा वस. वा (तु. पाका ६, २, २७)। h) = सूक्त-विशेष-। वस. पूष.  
 = प्रत्यावृत्त-। i) पाठः ? = प्रत्यरि-नक्षत्र- (तु. शोधपत्रे शिवदत्तः)। j) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ?। k) = प्रन्ध-विशेष-  
 (तु. पागमं.)। l) पाठः ? 'मम् (क्वि) इति शोधः संभाव्यते। m) पांमे. वैप २, ३ खं. जनयन् तैत्रा २, ४,  
 ६, १२ टि. द्र.। n) पांमे. वैप १, २१७१। द्र.। o) पांमे. वैप १, २१७१। द्र.। p) पांमे. वैप १, २१७१। द्र.।  
 q) पांमे. वैप २, ३ खं. प्र...युयोतन मंत्रा १, ६, १४ टि. द्र.। r) पांमे. वैप २, ३ खं परमेष्ठि तैत्रा १, ५,  
 ५, १ टि. द्र.। s) = विभक्ति-। t) सर्वनामसंज्ञा उस्. (पा १, १, ३३)। u) पांमे. वैप १, २१७३। द्र.।  
 v) पांमे. वैप १, ७७२। द्र.। w) पारिभाषिक-संज्ञा-। x) आन. पाठः। y) वैप १, २१७३। द्र.।

१२<sup>क</sup>; वैश्रौ १९, ४: ६<sup>क</sup>; हिश्रौ  
१२, १, २६<sup>क</sup>; पागृ; ३, २, ५<sup>क</sup>;  
आमिगृ ३, २, २: २<sup>क</sup>; वौगृ २,  
११, ३३<sup>क</sup>; कंभागृ २, १७:  
११<sup>क</sup>; या ६, १; ८, १२<sup>क</sup>; पा  
२, ३, ४६<sup>क</sup>; ८, १, ५९; -मा:  
शांश्रौ ४, १०, २<sup>क</sup>; काश्रौ; या २,  
२२<sup>क</sup>; ५, २५<sup>क</sup>; पा १, १,  
३३; -माव् आश्रौ २, १६,  
१२; ६, ६, २××; शांश्रौ;  
पा ४, १, ८२; -मान् आश्रौ ९,  
१०, ४; शांश्रौ; -मानाम् शांश्रौ  
१३, १०, ८; वाश्रौ ३, ४, ५, ५;  
-मानि आश्रौ ६, ४, २; वाश्रौ;  
या १२, ४१<sup>क</sup>; -माभिः लाश्रौ  
६, २, १; अश्र ३, २१××;  
-माभ्याम् आपश्रौ ५, ११, ६;  
१४, ३, १४; वैश्रौ; -माम्  
आश्रौ २, ४, १८××; शांश्रौ;  
आज्यो ६, १<sup>क</sup>; -माय आश्रौ ४,  
६, ३; १०, १<sup>क</sup>; शांश्रौ; -माया:  
आश्रौ ४, १, २६; शांश्रौ; अप्रा<sup>क</sup>  
२, २, ३, ५; पा<sup>क</sup> ७, २, ८८; ८,  
१, २६; पावा १, २, ४३<sup>क</sup>;  
-मायाम् आश्रौ २, १, १९; १८,  
३; शांश्रौ; -मायै शांश्रौ १०,  
६, ३; १८, २०, १; २; -मासु  
लाश्रौ ६, ८, १२; -मे आश्रौ  
२, १०, २२; ६, ४, २××;  
शांश्रौ; या ७, ८; १४, १६<sup>क</sup>; पा  
१, १, ३३; ४, १, २०; -मेन  
आश्रौ ६, १३, १०; शांश्रौ;  
-मेभ्यः लाश्रौ ७, ७, ३; अप; -  
मेपु आश्रौ ५, १०, १६; शांश्रौ  
७, २६, १२; ९, ७, १; -मैः शांश्रौ  
१३, १०, ७; द्राश्रौ; -मौ आश्रौ

११, ३, १; काश्रौ; या ८, १२.  
प्राथमिक- पा ४, २, ६३; ३,  
७२.  
प्राथम्य- म्याव् मौसू ९, १, ३३.  
प्रथम-कल्प- ल्पेन उनिस् १: २९.  
प्रथम-कृत- तस्म् आपश्रौ १५, ३,  
१७; ४, ६; भाश्रौ; -तान् माश्रौ  
२, २, २, १३; ५, ५, १७; हिश्रौ  
९, ६, २५.  
प्रथमकृता( त-अ )ग्रिहोत्र-  
विधान- नेन वैश्रौ २१, ९: ८.  
प्रथम-कृति- तौ निस् २, १३: ८.  
१प्रथम-गर्भ- भे कौगृ १, १४, १;  
शांश्रौ १, २२, १; पागृ १, १५, ३;  
गोश्र २, ७, २; द्राश्र २, २, १७.  
प्रथमगर्भिणी- ण्याः भागृ १,  
२१: १.  
२प्रथम-ग( भे > )र्भा- भाः  
आपश्रौ १२, ८, ११; -र्भायाः  
आमिगृ २, १, २: १; वौगृ १,  
१०, १; हिगृ २, १, २.  
प्रथम-ग्रथित- तान् आपश्रौ ११,  
६, ३; १३, २४, १४.  
प्रथम-ग्रहण- णे शुप्रा १, ६४.  
प्रथम-चतुर्थ- र्थयोः शांश्रौ १२,  
१६, २; -र्थाभ्याम् काश्रौ ३, ३,  
७; -थौ अप २: १४.  
प्रथम-चतुर्था( र्थ-अ )ष्टम-द्वादश-  
-शेषु वैताश्रौ ३२, १५.  
प्रथम-चिति- तेः काश्रौ १७, ३,  
१७; -तौ वैश्रौ १८, १७: ३६.  
प्रथमचिति-वत् वौश्रौ १९, १०:  
५५.  
प्रथम-चोदन- नाव् काश्रौ ९, ११,  
११.  
प्रथम-जृजा- जः शांश्रौ ३, १२,

१२; १३, २४; काश्रौ ४, ६, ९;  
माश्रौ; -जम् आपश्रौ ६, ३०,  
७××; वौश्रौ; -जयोः कौस्  
५१, ११; -जस्य कौस् २३, १४;  
-जा अप १, ३७, ५<sup>क</sup>; -जान्  
आपश्रौ २०, १४, १०; हिश्रौ.  
प्रथम-जन्मन्- न्म वैगृ ६, ७: १.  
१प्रथम-जा- जाः आपश्रौ ४, ७, २;  
२२, १७, १०; वौश्रौ; अशां ७,  
५<sup>क</sup>; या १४, १××; -१ंजाः  
आपश्रौ १६, १, ३; वैश्रौ १८,  
१: ९; हिश्रौ ११, १, ६; -जाम्  
भाशि ८०.  
प्रथम-जात- तस्य गोश्र ३, ६, ३;  
द्राश्र ३, १, ४४.  
प्रथम-तन्त्र- न्त्रम् निस् ९, ४: ९.  
प्रथम-तत्स(ः) वैश्रौ ५, ९: ३; लाश्रौ  
९, ८, १८; निस्.  
प्रथम-तृतीय- ययोः लाश्रौ ७, २,  
३; -चौ शांश्रौ ७, २७, १९;  
काश्रौसं ५: ५.  
प्रथमतृतीय-वर्जम् काश्रौ २४,  
२, ३७.  
प्रथमतृतीया( य-आ )दि-  
-दीनाम् पावा ६, ४, १२०.  
प्रथमतृतीय-पञ्चम-सप्तम-नवम-  
-मेपु गौध १४, ३८.  
प्रथम-त्व- त्वे पावा ६, १, १.  
प्रथम-दशम- मे लुस् २, १६: ४.  
प्रथम-दशम-पञ्चम- माः अप ४:  
१२.  
प्रथम-देवता- ताम् आपश्रौ १, ३, ७.  
प्रथम-द्वितीय- ययोः लाश्रौ ८, ३,  
२; निस् ९, ४: ७; -याः उस्  
१, ७; आशि ४, २; -याभ्याम्  
आश्रौ ८, २, १०<sup>क</sup>; -ये आश्रौ ८,

a) पाभे. वैप १, १४५१ h द्र.। b) = विभक्ति-विशेष-। c) = प्रतिपद्- (तिथि-)। d) पाभे. वैप १, २१७४ b द्र.। e) विप.। वस.। f) वैप १ द्र.। g) सप्र. ज्ञा <> ज्ञाः इति पाभे.।

२,५;लाश्रौ ७,५,९; -यौ शांश्रौ  
३, १३, २६; द्राश्रौ ५, १, २१;  
लाश्रौ २, ५, १७; आशि ४, २.  
प्रथम-द्वितीय-तृतीय-चतुर्थो ( थ-उ )  
त्तम- -मा: तैप्रा १, ११.  
प्रथम-धार<sup>अ</sup> -रस्य कौसू २१, ९.  
प्रथम-नवम- -माभ्याम् लाश्रौ ६,  
१२, २.  
प्रथम-निवृत्ति- -त्ति: पावा ६, १, २.  
प्रथम-निहत- -तात् आपश्रौ ११,  
४, १३.  
प्रथम-पञ्चक- -केन विध ७३, ५.  
प्रथम-पञ्चम- -मौ ऋप्रा १, ३९.  
प्रथम-पर<sup>अ</sup> -र: तैप्रा १४, १७; -रे  
तैप्रा २६, १६२.  
प्रथम-परापतित- -तम् काठश्रौ  
५२०.  
प्रथम-परापातित- -तम् वैश्रौ १०,  
७ : ४०; ८:६; हिश्रौ ४, २, ४३.  
प्रथम-परापातिन्- -तिनम् आपश्रौ  
७, २, ५०; ९, १०.  
प्रथम-परिधि- -धौ काश्रौ २६, ६,  
१२.  
प्रथम-पर्याय- -यस्य वैश्रौ १६, १ :  
१२.  
प्रथम-पुरुष- -प: पावा २, ३, १;  
-वै: या ७, १.  
प्रथम-पूरण- -णयो: पा ६, २, १६२.  
प्रथम-पूर्व<sup>अ</sup> -र्व: तैप्रा ५, ३८.  
प्रथम-प्रतिषेध- -ध: पावा १, ४,  
१०८.  
प्रथम-प्रतीक-त्व- -त्वेन अत्र १,  
३०१.  
प्रथम-प्रती(क-क>) किका<sup>अ</sup> -का

अत्र १, ३.  
प्रथम-प्रयोग- -ने शांश्रौ ४, १३, ४०;  
-गेपु गोश्रौ ४, ५, ११.  
प्रथम-प्रवर्द<sup>अ</sup> -दस्य कौसू १०, १७.  
प्रथम-प्लुत- -तम् आपश्रौ १२, ७,  
११.  
प्रथम-भाज<sup>अ</sup> -भाजम् आश्रौ ३,  
८, १; शांश्रौ ९, २७, ७; १३, ४, ३.  
प्रथम-भाव-ग्रहण- -णम् पावा १,  
३, १.  
प्रथम-भाविन्- -विन: ऋप्रा ३, १६.  
प्रथम-मण्डले(त्त-इ)ष्टका- -कायाम्  
जैश्रौप ८.  
प्रथम-मध्यमो( म-उ )त्तम, मा<sup>अ</sup>-  
-मा: पा १, ४, १०१; -मानाम्  
पावा १, २, ६४; -मासु वैश्रौ  
१२, ५ : १७.  
प्रथममध्यमोत्तम-पञ्चक- -कै:  
विध ७३, ८.  
प्रथममध्यमोत्तम-संज्ञा-  
-ज्ञायाम् पावा १, ४, १०१.  
प्रथम-मन्यन- -ने वैश्रौ १, १ : २५.  
प्रथम-मास- -सम् शांश्रौ १८, २४,  
४.  
प्रथम-यज्ञ- -ज्ञ: शांश्रौ ५, ९, १;  
आपश्रौ १०, २, ३; -ज्ञे काश्रौ  
२६, ७, ५३; आपश्रौ ११, २, ६;  
माश्रौ; -ज्ञेन आश्रौ ४, ८, १६;  
-ज्ञौ आपश्रौ २२, ६, ३.  
प्रथम-युवती- -तीम् वाध २, ३५.  
प्रथम-योग- -गे कौश्र ३, १३, १००.  
प्रथम-लिङ्ग-ग्रहण- -णम् पावा १,  
४, ३.  
प्रथम-रत्न- -नम् वाश्रौ १, २, १,

१७.  
प्रथम-वचन- -नम् पावा ४, १, ८२.  
प्रथम-वर्ज<sup>अ</sup> -जानाम् काश्रौसं ५:  
४.  
प्रथम-वास्य<sup>अ</sup> -स्यम् आपमं २,  
६, १५१; आग्निष्ट १, १, ४: १८१;  
२०; वौश्र.  
प्रथम-विज्ञान- -ने पावा ६, १, २.  
प्रथम-व्रत- -तम् वाधुश्रौ ४, ३८ :  
७; ९.  
प्रथम-शकल- -लम् काश्रौ ६, १,  
१३; २, १३; १९.  
प्रथम-शक्क- -क्कम् वाश्रौ १, ६,  
१, ११; ३, ४.  
प्रथम-श्राद्ध- -दस्य कागृ ६६, १.  
प्रथम-षष्ठ-सप्तमो(म-उ)त्तम- -मा:  
आश्रौ १२, ५, १०; -मानि  
आश्रौ ११, ५, ७.  
प्रथम-संवि(त्त>)त्ता<sup>अ</sup> -त्ता काश्रौ  
१६, ३, २०.  
प्रथम-संस्था- -स्था वाश्रौ ३, २, १,  
२८.  
प्रथम-सप्तम- -मयो: आपश्रौ २१,  
२५, ४.  
प्रथम-सप्तमो( म-उ )त्तम- -मा:  
काश्रौ २४, ३, २१.  
प्रथम-समावृत्त- -त्त या ७, २३.  
प्रथम-समिद्ध- -द्धे काश्रौ ४, १५,  
१५.  
प्रथम-संपात->प्रथमसांपातिक<sup>अ</sup>-  
-केपु आश्रौ ९, २, ५.  
प्रथम-सामन्- -म जैश्रौका ५०.  
प्रथम-साहस<sup>अ</sup> -स: शंघ २६३;  
-सम् विध ५, ३२; ६२x५.

a) विप. । वस. । b) उप. = धारा- । c) परस्परं पाभे. । d) षमः प्रती० इति पाठः? यनि.  
शोधः (तु. उत्तरं प्राति.) । e) सपा. षमप्रयोगे<> षमयोगे इति पाभे. । f) विप. । उस. अजन्तम् ।  
g) वैप १ द्र. । h) पारिभाषिक-संज्ञा- [पा.] । i) उप. < सं/विद् [लाभे] । j) विप. । तदर्हतीये  
ठकि प्र. उप. वृद्धिः उसं. (पा ७, ३, १७) । k) = दण्ड-विशेष- । वस. ।

प्रथम-सोम- -मे वौश्रौ २१, ७ :  
 २५; -मेन वौश्रौ २३, १६; २५.  
 प्रथम-स्कन्न- -न्नम् वैश्रौ १५, ९; ३.  
 प्रथम-स्थान- -नेन काश्रौ ३, १, ३;  
 ९, ६, १६.  
 प्रथम-स्पर्श<sup>a</sup>- -श्र्यः दंवि १, १०.  
 प्रथम-स्वर<sup>b</sup>- -रैः द्राश्रौ ६, १, १६;  
 लाश्रौ २, ९, १२.  
 प्रथमा(म-अ)क्षर-लोप- -पम् लाश्रौ  
 ६, १०, १४.  
 प्रथमा(म-आ)गामिन्- -मिनः या  
 ११, १३; १२, ३५; -मिनौ या  
 १२, १; -मौ या ८, ४; ९, १×४.  
 प्रथमागामिनी- -नी या ११,  
 २२.  
 प्रथमा(म-अ)ग्निहोत्र- -त्रम् माश्रौ  
 १, ६, २, ३; -त्राय माश्रौ १, ६,  
 १, ५३.  
 प्रथमा-चतुर्थी- -थ्यौ अश्र ४, ११.  
 प्रथमा-तृतीया- -थे शाश्रौ २, ५,  
 १८; १०, १०, ४; ११, ५;  
 अश्र ३, २९.  
 प्रथमा(म-आ)दि-त्व- -त्वम् अप  
 ४७, १, १४.  
 प्रथमा(म-आ)देश<sup>c</sup>- -शे या ४, २५.  
 प्रथमा(म-अ)द्विवचन- -न्म् पावा  
 ६, १, २.  
 प्रथमा-निर्दिष्ट- -ष्टम् पा, पावा १,  
 २, ४३.  
 प्रथमा-निर्देश- -शः पावा १, २, ४३.  
 प्रथमा( मा-अ)नुपपत्ति- -त्तिः  
 पावा २, ३, ९.  
 प्रथमा(म, मा-अ)न्त<sup>d</sup>- -न्तम् उस्  
 ७, १४; शुप्रा ७, १०; अश्र २,  
 ४, १४; -न्तानि शौच १, ८;  
 पावा २, १, १७.

प्रथमा(म, मा-अ)न्त्यन्त्या-  
 -न्त्याभ्याम् अश्र ६, ९७; -न्त्ये  
 काश्रौ १७, ४, ९; १९, ७, २;  
 -न्त्यौ काश्रौ १३, २, १.  
 प्रथमान्त्य-संयोग- -नात् मौस्  
 १०, ४, ५५.  
 प्रथमा-प्रतिषेध- -धे पावा ३, २,  
 १२४.  
 प्रथमा-बहुवचन- -ने या १, ८; ५,  
 २३.  
 प्रथमा-भाव- -वः पावा २, ३, १२,  
 ४६.  
 प्रथमा(म-अ)र्थ- -र्थम् पावा १, १,  
 २१.  
 प्रथमा-लक्षण- -णे पावा २, ३, ४६.  
 प्रथमा-वर्जम् कौस् ३५, १३; अश्र  
 २, २४.  
 प्रथमा-विधान- -नस्य पावा २, ३,  
 १.  
 प्रथमा-विधि- -धिः पावा २, ३,  
 ४६३; ५०.  
 प्रथमा(म-अ)स्तमित- -ते शाश्रौ २,  
 ७, १; काश्रौ ४, १५, ११; हिश्रौ.  
 प्रथमा(म-आ)हार- -रे काश्रौ १६,  
 १, ३; -रेण आपश्रु ११, १६;  
 हिश्रु ४, २०.  
 प्रथमे(म-इ)ष्टका- -काः माश्रौ ६,  
 १, ६, १३.  
 प्रथमै(मा-ए)कवचन- -न्म् पावा  
 ८, १, १२.  
 प्रथमो(म-उ)च्चारण-लक्षण- -णम्  
 शैशि २९.  
 प्रथमो(म, मा-उ)त्तम, मा- -मयोः  
 शाश्रौ १, १, १८; १२, १२, १०;  
 २६, २; काश्रौ; -माः शुप्रा १,  
 ८५; शौच १, ६; -मान् आश्रौ

६, ६, ५; ९, ५, ५; -माभ्याम्  
 वैश्रौ १, १३; ६; हिश्रौ ३, ४,  
 ३८; वैताश्रौ; या ११, १६; -मे  
 आश्रौ १, २, १९; आपश्रौ; -मौ  
 आश्रौ ७, ११, १२; शाश्रौ;  
 -मौऽ-मौ काश्रौ २४, ५, ९.  
 प्रथमोत्तम-वर्ग- > षांथि- -थे  
 ऋप्रा ४, ३३; शैशि २१५.  
 प्रथमोत्तमा(म-अ)नुवाक- -कौ  
 आश्रिण् १, २, २ : ४१.  
 प्रथमो( म-उ)त्तर- -रयोः भाश्रौ  
 ११, २१, ४.  
 प्रथमो(म-उ)त्पत्ति- -तम् माश्रौ  
 १, ८, १, ८; २१×४.  
 प्रथमो(म-उ)द्विष्ट- -ष्टे गोण् २, ८,  
 ६.  
 प्रथमो( म-उ)दृष्ट- -तम् काण्  
 ६४, १; जैण् २, १ : ४.  
 प्रथमो(म-उ)द्वव<sup>e</sup>- -वम् वौष ४,  
 ८, ५.  
 प्रथमो(म-उ)द्वपन- -नस्य काण्  
 ७१, ११.  
 प्रथमो(म-उ)पदि( ष्ट >) षा- -ष्टे  
 शाश्रौ १, १७, ७.  
 प्रथमो(म-उ)पवेशन- -ने आश्रौ १,  
 ३, ३२.  
 प्रथमो(म-उ)पहित- -ते माश्रौ १, २,  
 ६, २३.  
 प्रथमो(म-अ)पश- > षश-दा<sup>d</sup>-  
 -दाः आपश्रौ १७, ५, १६; वैश्रौ  
 १८, २१ : १८.  
 प्रथमस्या अश्र ५, ३.  
 प्रथमान- √पृथ् द्र.  
 प्रथमोमौ<sup>e</sup> अश्र १२, ५(१).  
 प्रथयत्-, थयित्वा, थस-, थस्तु-,  
 थित- प्रथ्. √पृथ् द्र.

a) विप. । वत. । b) =अकार- । c) टप. =उच्चारण-(तु.स्क.) । d) वैप १ द्र. । e) पाठः १ ।  
 प्रथमा, उभौ इति W. शोधः १ ।



प्र-दक्षिण,णा<sup>१</sup>- पाग २, १, १७;  
 -णः अप २४, ३, ५; ७०<sup>३</sup>,  
 २, १<sup>b</sup>; -णम्<sup>c</sup> आश्रौ २, ५,  
 ३; ५, १२, ७××; शांश्रौ ४,  
 १६, १०; ७, ५, ४; काश्रौ १, ७,  
 २५; ३, ८, १७××; आपश्रौ १,  
 १२, ३; २, ५, ६××; ७, ११,  
 ५<sup>d</sup>; काठश्रौ १४३; काश्रौसं  
 २८ : १; वौश्रौ १, ४ : २४;  
 १४ : २××; भाश्रौ १, १, १२<sup>e</sup>;  
 ४, ७××; माश्रौ १, १, १, ४;  
 ४४××; वाश्रौ १, १, १, ७७; २,  
 २, २××; वैश्रौ १, १ : १०; १३:  
 १××; हिश्रौ १, १, ५३; २,  
 ४४××; जैश्रौ ६ : १९; जैश्रौका  
 ७७; ७८; द्राश्रौ २, १, २२; ३, २,  
 २××; लाश्रौ १, ५, १८; १०,  
 १××; वैताश्रौ २, २०; १०, १८;  
 छसू १, ११ : १०; निसू १,  
 ११ : १२; आश्रु १, ७, ६; १७,  
 ७××; कौश्रु १, ३, २; ५, ४××;  
 शांश्रु १, ७, ११; ८, १७××; पाश्रु  
 १, ५, १; २, १, १७××; वैश्रु ६५:  
 ६; आश्रिण १, १, १ : ४१; २ :  
 ३५××; आपश्रु १, ४; ५, १××;  
 काश्रु २४, ११; १२××; काश्रु  
 ४१ : २०; वौश्रु १, १, २३; २,  
 १७××; वौपि १, ४ : ४; भाश्रु  
 १, ८ : १६; १० : ६××; माश्रु  
 १, २, २; ९, १३××; वाश्रु ५, २२;  
 १४, १४××; वैश्रु १, ३ : ९;  
 १६××; हिश्रु १, २, १०; ४, ४××;  
 हिपि १८ : १२; गोश्रु १, ३, ४;  
 १३××; गौपि १, ३, २२; २, ४,

३; जैश्रु १, ३ : ७; ४ : २९××;  
 द्राश्रु १, २, ११; १९××; कप्र २,  
 ५, १८; कौसू २, ११; ७, १४××;  
 अप १, ३१, ८; ४, ४, ५××; वाघ  
 १२, ४२; शंघ १३३; वौघ १,  
 ४, ३; २, ५, ६××; विघ ७३,  
 २३; २६; वैघ २, २, ३; ४××;  
 गौघ २, ६६; आपश्रु ९, ३; १४,  
 ५; वौश्रु १८ : ११; हिश्रु ३,  
 २२; ४, ४६; ऋश्रु १५, २१;  
 -णस्य वैश्रौ २०, २ : ९; -णा  
 माश्रौ १, १, ३, ४२; अप ४१,  
 ३, १२; ७०<sup>३</sup>, २, ३; -णाः  
 कौश्रु १, ८, १९; शांश्रु १,  
 १३, ९; -णानि आश्रिण २, ६,  
 ८ : ४१; -णाम् अप १, ३५, ३;  
 २०, ६, ८; चाश्रु ३० : ३; -णे  
 अप ५३, ६, २; -णौ कौश्रु १,  
 १, १०; शांश्रु १, ५, ९.  
 प्रादक्षिण्य<sup>e</sup> - ण्यम् अप १,  
 ३२, १; ७०<sup>३</sup>, ३, ४; -ण्याः अप  
 १, ३२, ३  
 प्रादक्षिण-गति<sup>f</sup> - तिः अप ७०<sup>३</sup>,  
 ४, ५.  
 प्रादक्षिण-ग्रन्थि- -न्थिम् कौश्रु १,  
 ४, ३.  
 प्रादक्षिण-नमस्कार- -रौ वैश्रु ४,  
 ९ : ८.  
 प्रादक्षिण-मुख<sup>g</sup> - खम् अप १, ३१, १,  
 प्रादक्षिणा-गमन- -नात् या १, ७.  
 प्रादक्षिणा(ण-अ)न्त<sup>h</sup> - न्तम् अप  
 ४०, १, १०.  
 प्रादक्षिणा(ण-अ)निमुख- -खाः शंघ  
 ३४४.

१ प्रादक्षिणा(ण-अ)वर्त- -र्ते अशतं  
 १५, ६.  
 प्रादक्षिणावर्त-शुभ<sup>i</sup> - भाः अप  
 ५२, १, १४.  
 २ प्रादक्षिणा(ण-आ)व (र्त > )र्त<sup>j</sup> -  
 -र्ताम् भाश्रौ १०, ६, १३.  
 प्रादक्षिणा(ण-आ)वृत् - वृत्ता माश्रौ  
 ६, १, ५, ४०<sup>h</sup>.  
 प्रादक्षिणी√कृ, प्रादक्षिणीकुर्वते वैश्रौ  
 १८, १ : २०; ५२; प्रद-  
 क्षिणी...कुर्वते वौश्रौ १०, २ :  
 ११; ४ : २१; प्रादक्षिणीकुर्वति  
 हिघ २, ४, ४८<sup>i</sup>; प्रादक्षिणीकुर्यात्  
 आपघ २, १२, ११<sup>j</sup>; विघ ६३,  
 २६.  
 प्रादक्षिणी-कृत्य आश्रिण ३, ११,  
 २ : १८; आपश्रु २१, ९; वौश्रु.  
 प्रादक्षिणो(ण-उ)दक<sup>k</sup> - -कम् वैश्रौ  
 १२, ४ : ३.  
 प्रादक्षिणित्<sup>l</sup> ऋश्रु २, २, ४३; या  
 ८, १९.  
 प्रादक्षिण- -त्ति, -तीन् अप १, १०, ३.  
 प्रादक्ष- प्र√दा द्र.  
 प्रादक्ष- प्र√दृ द्र.  
 प्रादक्षक- प्रम्. प्र√दृ द्र.  
 प्रादक्ष्य<sup>m</sup> - -व्यात् काश्रौ २५, ४, ३२<sup>n</sup>.  
 प्रादक्ष > प्रादक्षन- पाग ८, १, २७.  
 प्रादक्ष प्रदहन्ति वौश्रौ १४, १९ : ७;  
 सु ८, ३; अप ५८, १, २; प्रदहत्  
 वैताश्रौ १४, १<sup>n</sup>; प्रदह जैश्रु १,  
 ४ : ४<sup>n</sup>; प्रदहेत् निसू ४, २ : २९.  
 प्रादक्ष्यति निसू ४, ३ : १६<sup>n</sup>;  
 द्राश्रु २, ५, ३०<sup>n</sup>; प्र...दक्ष्यति  
 वौश्रौ २, १७ : ९<sup>n</sup>.

a) भाप., विप. । उत्तरपक्षे तद्वति वृत्तेः । वैप १ द्र. ।  
 c) प्रायेण क्विपि. । d) पृ १२०७ h द्र. । e) स्वार्थे ण्यञ् प्र. । f) वस. । g) विर. (मेघ-). ।  
 h) पाभे. पृ १२२६ f द्र. । i) परस्परं पाभे. । j) वैप १ द्र. । k) = दावानल- (वैप २, खं. द्र.) ।  
 l) प्रादक्ष्यति इति संस्कृतः टि. । m) ण्ति इति आन. ? ।

प्रदहन्ते अप ५८, १, १; ५.  
 प्र-दहत्- -हत् वैताश्रौ ६, ७; १४,  
 १; अप २४, ४, ४.  
 प्र-दहन- -न्त् काश्रौ २६, १, २६.  
 प्रदहनो(न-उ)हरण- -णे काश्रौ  
 १६, ४, १७.  
 प्र-दहत्<sup>१</sup> (: ) वौश्रौ १४, १९ : ६.  
 प्र-धक्षत्- -क्षन्त् निस्र ४, ३ : १९.  
 प्र<sup>२</sup>/दा<sup>३</sup>, प्रददाति वैश्रौ १, १५ : ३;  
 हिश्रौ १०, ३, २९; काश्रु १६, ३;  
 २८, ५; प्र<sup>४</sup>ददामि आश्रु १,  
 १५, १९; प्रदत्ता<sup>५</sup> कौश्रु ११५,  
 २१; प्रदद्यात् जैश्रु २, १ : ७;  
 अप्राय ३, ७; अप.  
 प्रददौ वौश्रौ १८, ४७ : १७;  
 २१; प्रददुः कौश्रु १२५, ९१;  
 प्रदात्यसि वाधूश्रौ ४, ४९ : ३;  
 ४; प्रदात्यानि वाधूश्रौ ४, २६ :  
 ६; गौपि २, ४, १८; वाच १७,  
 १७; प्रादात् वृदे ३, १८xx; या  
 ३, ६; प्रदादाः आपश्रौ १, १०,  
 १४<sup>६</sup>; वौश्रौ २, ११ : १२<sup>६</sup>;  
 भाश्रौ १, १०, १<sup>६</sup>; वाधूश्रौ ४,  
 २६ : १३६; हिश्रौ २, ७, ५६<sup>६</sup>.  
 प्रदीयते हिश्रौ ३, ८, २७; आपघ  
 २, २७, ३; हिघ २, ५, २२; या  
 ३, ६; प्रदीयन्ते वैश्रौ ६, ७ : ७;  
 १० : ४; हिश्रौ २, २, ३३; ४५;  
 या २, १८; प्रदीयते वौश्रौ १३,  
 १४ : ४; २६, ५ : २२; प्र...  
 दीयते आपश्रौ ५, ३, १२; भाश्रौ  
 ५, १, १५; हिश्रौ ३, २, १४;

प्रदीयेत् मीश्रु ४, १, ७.  
 प्र<sup>७</sup>ददित्ते आश्रौ ८, ११, ११;  
 प्र ( ददित्ते ) शाश्रौ १०, ९, ४;  
 ऋश्रु २, ७, ९०; ३, २७; वृदे.  
 प्रदापयति ताश्रौ ९, ८, २; आश्रिण्ट  
 २, ३, २ : ८; प्रदापय वौश्रौ ९,  
 ९ : ८<sup>७</sup>; प्रदापयेत् आश्रिण्ट २,  
 ४, ५ : २६; कप्र १, २, ७; अप.  
 प्रदीयित वाधूश्रौ ४, ३८ : ८;  
 ४९ : ७.  
 प्र-त्त,त्ता- -त्तः आश्रु ४, ७, ११<sup>७</sup>;  
 आश्रिण्ट ३, ३, १ : २८<sup>७</sup>; वैशि<sup>१</sup>  
 २, ९, ६; ११, ३; -त्तम् आश्रौ ५,  
 ७, २; काश्रौ; या २, १; -त्तया  
 हिश्रौ १०, २, १०<sup>७</sup>; -त्तयोः  
 दाश्रौ १२, १, २१; लाश्रौ ४,  
 ९, १५; -त्तस्य वौश्रौ २५,  
 २४ : १६<sup>७</sup>; -त्ता हिश्रौ २,  
 ३, १५; -त्तानाम् पाश्रु ३,  
 १०, ४२; ४७; वाघः -त्तान्  
 पाश्रु १, ४, १५; -त्तायाम् वौश्रौ  
 ९, ९ : ११; जैश्रौ २३ : १०;  
 जैश्रौका ५७; -त्तासु आश्रु ४,  
 ४, २३; वौष १, ५, ९४; -त्ते  
 काश्रौ ८, ६, २८; तैप्रा ४, ११<sup>७</sup>;  
 -त्तेऽ-त्ते काश्रौ १६, ६, ८<sup>७</sup>;  
 -त्तेन काश्रौ १५, ७, १३.  
 प्रत्त-द्वैवत्<sup>८</sup>- -त्तम् आपश्रौ ९,  
 १५, १३; भाश्रौ ९, १७, १४;  
 हिश्रौ १५, ४, ३३.  
 प्रत्त-दोष- -षे शाश्रौ ३, २०,  
 १३.

प्र-दत्त- -त्तम् अप १२, १, १०.  
 प्र-दातव्य,व्या- -व्यन् वौष २,  
 ३, ६१; -व्याः काश्रु ७, ३६.  
 प्र-दात्- -त्तः जैश्रु १, १२ : २१<sup>७</sup>;  
 -त्ता आश्रौ ३, १३, १३;  
 आपश्रौ; -त्तारम् शाश्रौ ७,  
 १८, ९; वौश्रौ; -त्ते आश्रौ ८,  
 १४, ४<sup>७</sup>; शाश्रौ ३, २, २<sup>७</sup>;  
 काश्रौ.  
 प्र-दातोः<sup>९</sup> (: ) वौश्रौ १४, ४ : ३६.  
 प्र-दान<sup>१०</sup>- -नाः आपश्रौ २२, २६,  
 ४; हिश्रौ २३, ४, २०; -न्त्.  
 शाश्रौ १, १६, ७xx; काश्रौ;  
 -न्त्य मीश्रु १६, २, २३<sup>७</sup>; -नाद.  
 काश्रौ ६, ९, २; भाश्रौ; -नान्  
 आश्रौ ३, ७, १; नीश्रु १०, ३,  
 ५०; -नानि आश्रौ ३, ४, ४<sup>७</sup>;  
 वौश्रौ २६, ११ : १६<sup>७</sup>; -ने  
 वौश्रौ २०, १६ : ५२xx; -नेन  
 निघ ९२, १५; या २, ११; ६, ९.  
 प्रदान-काल- -ले जैश्रौ २६ : ४.  
 प्रदान-वत्<sup>११</sup> (: ) वौश्रौ २०, ६ : २;  
 २३, २ : २xx.  
 प्रदान-दर्शन- -न्त् नीश्रु २, ४,  
 ३०<sup>११</sup>.  
 प्रदान-न्याय-त्व<sup>१२</sup>- -त्वात् नीश्रु  
 १०, ७, ६.  
 प्रदान-प्रतिग्रह- -हौ वौश्रौ १५,  
 २७ : ५; ९.  
 प्रदान-मात्र- -त्रम् वौष २, ११,  
 ५५, ५६; वौपि ३, ६, ९<sup>१२</sup>.  
 प्रदान-वत् मीश्रु १०, २, २ : १६-

a) गस. उप. कसुन् प्र. । b) पा ३, २, ६ परानुष्टः द्र. । c) सपा. कौश्रु १, १६, ७  
 शाश्रु १, २४, ४ प्र<sup>७</sup>चच्छामि इति पामे. । d) पाठः? प्रदत्ताम् (लोडि प्रपु२) इति शोधः ( तु. पै १, ९१, ४ ) ।  
 e) पामे. वैष १, २१७६ a द्र. । f) प्रत्तयेहि इति पाठः? प्रत्तः स्वघयेहि इति शोधः ( तु. आश्रु., अंशतः  
 आश्रिण्ट. ) । g) विप. । केषु पृ २७७ g टि. द्र., वत्. वेति भाष्यम् । h) उप. भावादपर्ये प्र. । i) =मन्त्र- ।  
 j) प्रघा<sup>१३</sup> इति पाठः? चनि. शोधः ( तु. जीसं. प्रन्. ) । k) नाप. =याग- । l) =प्रदेयद्रव्य- ।  
 m) वस. । नत्वात् इति जीसं. प्रन्. ।

प्रदान-विक्रय-त्याग- -नेषु वाध  
१५, २.

प्रदान-विधि- -धिम् काट् १५, १

प्रदान-विप्रकर्ष- -र्षः मीस् ११,  
२, ६१.

प्रदाना(न-अ)न्त<sup>१</sup>- -न्तानि कौस्  
१४, २४; १५, ३; ७; १६, २३.

प्रदाना(न-अ)भिमर्शन- -नानि  
कौस् ३६, २५.

प्रदाना(न-अ)र्ध-विधान<sup>१</sup>- -नम्  
मीस् ९, ४, ४२.

प्र-दाय आश्रौ १, ११, १५; शांश्रौ.

प्र-दास्यत्- -स्यन् वौश्रौ १०, १६ :  
१२ x x; वैश्रौ १८, ९ : १; ४.

प्र-द्रीयमान, ना- -नम् आपश्रौ १०,  
२३, ५; भाश्रौ १०, १५, १४;

हिश्रौ ६, ४, ४; ७, २, ३०; -नात्  
आपश्रौ १८, १४, १२; -ने वैश्रौ

१, ८ : ३; हिश्रौ ६, ५, १०;  
-नेषु हिश्रौ ३, ५, ८.

प्र-दे(य >)या- -या अप ४, २, ११.

प्रा(<प्र)-दाय वृदे ३, २४.

प्र-दातव्य- प्रम्. प्र/दा द्र.

प्र-दाच<sup>१</sup>- -वात्<sup>१</sup> माश्रौ ६, १, ३, २७; १.

प्र-दाव्य<sup>१</sup>- -व्यः वौश्रौ १४, २६ :  
१९; -व्यम् वौश्रौ १४, १३ :

१६; -व्यात्<sup>१</sup> आपश्रौ १६, ९,  
८; वैश्रौ १८, ७ : १०; हिश्रौ

११, ३, १०; -व्याय आमिष्ट  
२, ७, ९ : २३; २४; भाग्य ३,

१९ : ९; १०; -व्ये आपश्रौ  
१३, २४ : १६; वौश्रौ; -व्येन

शांश्रौ ३, ४, ५; आपश्रौ.

प्र-दिग्घ- प्र/दिह द्र.

†प्र-दिच्<sup>१</sup>- -दिवि<sup>१</sup> ऋपा ८, ४६;  
-दिवे आपश्रौ ५, ६, ३१.

†प्रदिवः<sup>१</sup> आश्रौ ५, ५, १९; शांश्रौ ७,  
१७, १०; हिश्रौ ३, २, ५६; अप  
४८, ७०; निघ ३, २७; या ४,  
८; ६, १७; ८, १९; १०.

प्र/दिश्, प्रदिशति अप्राय २, ९;  
प्रदिशन्ति छुस् २, १६ : १४; ३,  
१६ : १; या १, १; २, २.

प्र (अदिवि) वृदे ५, ४२; १.

प्रदिश्यन्ते लाश्रौ १०, १०, ३;  
प्रदिश्येत शांश्रौ १४, १, २.

प्र-दिश्<sup>१</sup>- -दिछु वैश्रौ १८, २० :  
३८; -†दिशः आश्रौ २, १४,  
१२; १०, ९, ५; काश्रौ २, १, ३;

आपश्रौ; †या ८, २२; ९, १७;  
११, ४१; -†दिशम् आपश्रौ

५, १४, ५; १७, १५, १; वौश्रौ;  
-†दिशा या ८, ९; १२; १०;

-†दिशि आमिष्ट २, १, ५ : ११;  
या ८, २१; -दिशे अप ४७,  
१, ४.

प्र-दिशत्- -शन् आपश्रौ ९, ८, ८;  
वौश्रौ १३, ४३ : १६; पाग्य;

-शन्तौ या ८, १२.

प्र-दिष्ट, षा- -ष्टम् शांश्रौ १२, ७, ३;  
वौश्रौ १३, १ : १; भाग्य; -ष्टा:

काश्रौसं ३ : ६; वृदे १, ७२;  
-ष्टानि वृदे ३, ४९.

प्रदिष्ट-त्व- -त्वात् मीस् १०, ७,  
६४.

प्र-देश<sup>१</sup>- -शाः वौश्रौ २१, ३ : १३;

निस् ८, ८ : ११; २३; या १,  
१३; १४; मीस् ९, २, ५; -शाः

वौश्रौ २९, ८ : २५; या १, १७;  
-शात् मीस् ११, ३, ११; -शान्

आश्रौ १०, ५, १५; हिश्रौ ३, ८,  
२०; -शे शांश्रौ १२, ३, १६;

वैश्रौका; -शन छुस् २, १६ :  
१८; ३, १६ : १७.

प्रादेशिक<sup>१</sup>- -कः कौस् ९४,  
१७; १२०, १३; १२६, १३;

अशां २५, ४; -कम् या १, १४;  
-केन या १, १२ x x.

प्रदेश-त्व- -त्वात् मीस् ९, ४,  
१०.

प्रदेश-शास्त्र- -क्षेपु ऋपा ११,  
६८.

प्र-देशि(न् >)नी<sup>१</sup>- -नी कौशि ३८;

-नीम् हिश्रौ २१, २, ५२;  
-न्या शांश्रौ २, ९, १४; काट्

२४, ११; कप्र १, १, ६; -न्याः  
आश्रौ १, ७, १; वैय १, २ : ७;

माशि ४, १३; -न्याम् शांश्रौ  
१, १०, १; आमिष्ट २, ६, १ : ९;

माशि २, ११; नाशि १, ७, ३.

प्रदेशिनी-मूल-निविष्ट-सूर्यन्-  
-र्धा शैशि १७७.

प्रदेशिन्य(नी-अ)ङ्गुलि- -लौ  
वैश्रौ ६, ११ : ११<sup>१</sup>.

प्रदेशिन्य(नी-अ)ङ्गुष्ठ- -ष्ठयोः  
वैय १, ५ : ७; वाध ३, ६८; शंघ

५४; -ष्टभ्याम् आमिष्ट २, ६,  
१ : २०.

प्रा(<प्र)-देश<sup>१</sup>- -शाः आश्रौ २, १९,

a) वस. । b) व्यं वि० इति आन. । c) वैप १ द्र. । d) सपा. प्रदावात् ( मै ३, १, ९ च) <>

प्रदान्यात् इति पामे. । e) पामे. वैप १, २०९१ d द्र. । f) पामे. वैप १, २१७८ b द्र. । g) आप., नाप. ।

उप. घञ् प्र. । h) विप. [या.], नाप. (प्रान्ताधिपति- [कौस्. अशां.]) । i) = तर्जनी- [अश्रुलि-] । j) पृ ६१ b टि.

०८. प्रादेशिनीम् इति पाठः ? ०८, प्रदेशि<sup>१</sup> इति शोध इति द्र. । k) प्रा० इति पाठः ? यनि. शोधः । l) शुल्लैः... पर्वणोः  
इत्यस्य स्थाने सप्र. आश्रौ १, ७, १ प्रदेशिन्याः पर्वणी इति, काश्रौ ३, ४, ६ आपश्रौ ३, २, ३ अङ्गुलिपर्वणी इति च पामे. ।

११; काश्रौ ५, ३, १०; आपश्रौ;  
-शम् आश्रौ १, ३, २२; शाश्रौ;  
-शस्य माशि २, ११; याशि १,  
५३; -शात् कप्र १, ८, १८;  
-शान् आपश्रौ १४, २८, ६; -शे  
आपश्रौ १, ६, ६; काठश्रौ; -शेन  
शाश्रौ १, ५, ८××; आपश्रौ;  
-शैः माश्रौ ४, ३, ४०; अप्राय  
४, १; -शौ वौशु १ : ६.  
प्रादेश-द्वय- -यम् कप्र १, ८,  
१९.

प्रादेश-पा(द् >)दी<sup>३</sup>- -द्याम्  
काश्रौ १३, ३, ४<sup>३</sup>.  
प्रादेश-मध्य<sup>३</sup>- -ध्यान् वैश्रौ  
१४, ७ : ४.

प्रादेश-मात्र,त्रा- -त्रः वाश्रौ ३,  
३, १, ३१; हिश्रौ १३, ३, ४४;  
काशु ७, १०; चव्यू ४ : १६;  
-त्रम् काश्रौ २६, १, १७;  
आपश्रौ; -त्राः शाश्रौ १७, २, ७;  
वौश्रौ; -त्राणि काश्रौ ९, २,  
१४; आपश्रौ १२, १, ४; माश्रौ;  
-त्रान् काश्रौ ८, ५, ६; २६, २,  
१८; आपश्रौ; -त्रे शाश्रौ १७,  
१५, १२; काश्रौ; -त्रेण शाश्रौ  
१७, ४, ७; १०, १३; आपश्रौ ८,  
५, १०; माश्रौ ८, ४, ८; -त्रैः  
आपश्रौ १६, ११, १; वैश्रौ १८,  
९ : ३; हिश्रौ ११, ४, २; -त्रौ  
आपश्रौ १, ११, ६; माश्रौ.

प्रादेशमात्री- -त्री काश्रौ  
१६, २, ५; माश्रौ २, ३, १, १८;  
-त्रीः काश्रौ १६, ४, ३३; वौश्रौ;  
-त्रीम् शाश्रौ २, ८, २२; काश्रौ;  
-त्र्यः आपश्रौ ५, ५, १०; माश्रौ.

प्रादेशमात्रि(क >)  
का- -का कप्र १, ६, १०.

प्रादेशमात्र-प(द >)दा<sup>३</sup>-  
-दा<sup>०</sup> वैश्रौ १८, ६ : ५.

प्रादेशमात्र-पा(द >)दा<sup>३</sup>-  
-दा<sup>०</sup> आपश्रौ १६, १०, १६;  
वाश्रौ २, १, ३, ४; हिश्रौ ११,  
३, ३८.

?प्रादेशमात्राभिधारिता-  
नाम्यादिभिः<sup>d</sup> जैरु २, ९ : २२.

प्रादेशमात्रा(त्र-अ)रतिमात्र-  
-त्रे काठश्रौ ११८.

प्रादेश-मुख<sup>३</sup>- -खाः हिश्रौ ७,  
६, १<sup>०</sup>; आपशु ७, २; वौशु ४ :  
११; हिशु २, ४८<sup>१</sup>; -खान्  
आपश्रौ ११, ११, १<sup>०</sup>; वौश्रौ ६,  
२६ : १२<sup>०</sup>××; वैश्रौ १४, ७ : ३<sup>०</sup>.

?प्रादेशनूलविस्तृतम् वैश्रौ ११,  
८ : ११.

प्रादेश-विस्तृत- -तम् वैश्रौ ११,  
१० : ३.

प्रादेश-व्यास<sup>३</sup>- -सौ वौशु १२ :  
५.

प्रादेश-स(म >)मा- -मान्  
काश्रौ ५, ३, ३१.

प्रादेश-संमित,ता- -तः  
आपश्रौ १, ६, १०; वौश्रौ १, ३ :  
४; माश्रौ १, ६, १३; हिश्रौ १,  
३, ४; -तम् वैश्रौ १०, ७ : १०;  
-ताः वैश्रौ १, ८ : १४.

प्रादेश-सविशेष- -पेण वौशु  
१२ : ९.

प्रादेशा(श-अ)न्त<sup>३</sup>- -न्तम् अप  
३६, २१, १.

प्रादेशा(श-अ)न्तराल<sup>३</sup>- -लाः

हिश्रौ ७, ६, १<sup>१</sup>; आपशु ७, २;  
वौशु ४ : ११; हिशु २, ४८;  
-लान् आपश्रौ ११, ११, १<sup>१</sup>.

प्रादेशा(श-अ)न्तस्पाद्<sup>३</sup>-  
-दान् वौश्रौ ६, २६ : १२<sup>१</sup>; १३<sup>१</sup>.

प्रादेशा(श-आ)या(म >)मा<sup>३</sup>-  
-माः गोगु ४, २, १७.

प्रादेशा(श-अ)र्ध- -र्धम् वैश्रौ  
११, ८ : १२.

प्रादेशा(श-अ)वम- -मम् वौश्रौ  
४, १ : २८.

प्रादेशो(श-उ)देश-गामिन्-  
-मिनम् माशि २, १०; याशि १,  
५२.

प्रादेशो(श-उ)पवेशन- -ने आश्रौ  
४, ८, ३.

प्रदिश्<sup>३</sup>,<sup>०</sup>दिशत्,<sup>०</sup>दिष्ट- प्र√दिश् द्व  
प्र√दिह्, प्रदेगिध कौसू २९, २३.

प्र-दि(ग्ध >)ग्धा- -ग्धा आपश्रौ  
१६, १०, १६; हिश्रौ ११, ३, ३८;  
-ग्धाम् आपश्रौ १७, १७, ८.

?प्रदीक्षितारितितस्ते वाश्रौ ३, २,  
४, १०.

प्र√दीप्, प्रदीप्यते अप ७०<sup>३</sup>, ७, ९;  
७१, ९, ४; वौघ २, ७, १५; या  
७, २३; प्रदीप्यन्ते अप ७०<sup>३</sup>,  
७, ८; २३; २१, ३; ७१, ९, ५.

प्रदीपयति आपश्रौ १५, ७, ३<sup>१</sup>;  
माश्रौ ११, ७, ७; प्रदीपयेत् अप  
७, १, ५; अशां १५, १.

प्र-दीप<sup>३</sup>- पाग ५, १, ४; -पान् अप  
६, १, ७; १९<sup>२</sup>, २, ३; -पैः अप  
२१, ६, ६; ६८, ५, २१.

प्रदीप-वत् कप्र १, १, १; मीत्-  
११, १, ६०.

a) विप. 1 वस. । b) तु. चौसं. । पाद्यायाम् इति अच्यु. ? । c) परस्परं पाभे. । d) पाठः ?  
प्रादेशमात्राम्, अभिधारिताम्, आज्यादिभिः इति त्रि-पदः शोधः (तु. सप्र. आभिप्र २, ५, १ : ३३) । e) परस्परं  
पाभे. । f) परस्परं पाभे. । g) उप. = अन्तरालं- (तु. पाभे.) । h) नाप. । उप. कर्तारि कृत. ।

प्रदीपीय-<sup>०</sup>दीप्य- पा ५, १, ४.  
प्रदीपित-><sup>०</sup>पित-पथ<sup>०</sup>- थम्  
अप ६४, २, १.

प्रदीप्त, सा- -सः अप ३८, ३, २;  
७०<sup>३</sup>, २, २; -सम् काश्रौ ८, ७,  
१; आगृ ३, १०, ११; -साः अप  
६५, १, ७; -साम् आश्रौ २, ३,  
१६; काश्रौ ४, १४, १४; वैताश्रौ  
७, १०; अप ४५, १, १९; -से  
आश्रौ १, ४, ९; -सैः अप ६३,  
२, ३.

प्रदीप्त-तम- -मे काश्रौ ४, १५,  
१७.

प्रदीप्त-लक्षण<sup>०</sup>- -णाः अप ५८,  
१, ६.

प्रदीप्ता(स-अ)प्र<sup>०</sup>- -ग्रः अप २४,  
३, ४.

प्रदीप्ता(स-अ)यः पिण्ड-लोह-  
कण्टक-शयन<sup>०</sup>- -नानि शंघ  
३७४.

प्रदीप्ते(स-इ)न्द्रयष्टि-पाद-  
भरन<sup>०</sup>- -न्ने अप ७२, ३, ८.

प्रदीप्य आपश्रौ १५, ३, १७; १३,  
३<sup>३</sup>; भाश्रौ; प्रदीप्यऽप्रदीप्य  
काश्रौ १०, ६, १४; २६, ७, ३.

प्रदीयमान- प्र<sup>०</sup>दा द्र.

प्र<sup>०</sup>दुप् > प्र<sup>०</sup>दुष्ट- -ष्टे अप ७०<sup>३</sup>,  
११, २६.

प्र<sup>०</sup>दुह्, प्र<sup>०</sup>दुहते वौश्रौ १४, ५ :  
४९; माश्रौ २, ३, ६, १५.

प्र<sup>०</sup>दृष्टृ(वधा.) > प्र<sup>०</sup>दृष्ट- -रः वौश्रौ  
२, ४ : २१; १७ : ९ x x; वैश्रौ  
१३, ६ : ७; -रात् काश्रौ २१,  
४, १०; वाध ३, ३५; -रे

आपश्रौ १४, १३, १४ x x; वौश्रौ  
प्रदुरो(र-उ)दक- -के आपध १,  
१५, ५; हिघ १, ४, ६४.

प्र<sup>०</sup>दृश्, प्रदृश्यते अप १, ५, ७; ३२,  
३ x x; वृदे २, १३२; नाशि २,  
२, १७; प्रदृश्यन्ते अप ५२, ८,  
२; ६४, ५, ५ x x; कौशि २४.

प्रदर्शयति वैश्रौ ५, ३ : १३;  
प्रदर्शयेत् आमिगृ २, ७, ६ : ३१;  
शंघ १०९; विघ २२, ३७; ऋप्रा.

प्रदर्शक- -कः ऋप्रा १०, १५.

प्रदर्शन- -नम् अप ६४, ३, २; ५,  
६; ७०<sup>३</sup>, १६, १; ऋप्रा ११, २७;  
माशि १०, २.

प्रदर्श(न >) ना<sup>०</sup>- -नाः अप ५८,  
१, ५.

प्रदर्शित, ता- -तम् जैश्रौका १२१;  
-ताः अप २३, १, २; वृदे ५,  
२५.

प्रदेया- प्र<sup>०</sup>दा द्र.

प्रदेश- प्रष्ट. प्र<sup>०</sup>दिश् द्र.

प्रदो(पा >) प<sup>०</sup>- -पः कौसू १४१,  
३५<sup>३</sup>; -पम् माश्रौ १, ६, १, ८;  
वाश्रौ १, ५, २, ७; पागृ ३, ४, ८;  
-पात् अप ६३, १, ९; -षे आपश्रौ  
६, ४, ८; वौश्रौ; कौसू १४१,  
३७<sup>३</sup>.

प्रादोप-, <sup>०</sup>पिक- पा ४, ३, १४.

प्रादोपक- पा ४, ३, २८.

प्रादोप-चारि(न् >) णी- -णी भागृ  
१, २३ : १६<sup>३</sup>.

प्रादोपा(प-अ)न्त<sup>०</sup>- -न्तः आश्रौ  
३, १२, १; वैश्रौ २, २ : ११.

प्रदोप<sup>०</sup>- -पः अप २०, ७, ८.

प्रदोहन<sup>०</sup>-> प्रादोहनि- (> <sup>०</sup>हना-  
यन- पा.) पाग २, ४, ६१.

प्र<sup>०</sup>द्युत्, प्रद्योतयति वौगृ ३, ८, २.

प्रद्युम्न<sup>०</sup>- पाग ४, १, ९६; -न्नम् शंघ  
११६ : ६५; -त्राय विघ ६७, २.

प्राद्युम्नि- पा ४, १, ९६.

प्र<sup>०</sup>द्वु, प्र<sup>०</sup>द्वव आश्रौ ६, ४, १०;  
शांश्रौ १८, १३, ७; आमिगृ ३,  
६, ३ : २५; ७, ४ : १६; वौपि;  
प्र<sup>०</sup>द्वव उनिस् ५ : ३०;

प्र(द्वव) ऋग्र २, ९, ८७;  
साग्र १, ५२३<sup>३</sup>; प्र(अद्ववत्)  
शांश्रौ १२, २, १४; आगृ ३, १२,  
१२; प्रद्वेत् द्राश्रौ ११, ३, १३;

लाश्रौ ४, ३, १४.  
प्रद्वुद्वाव या १२, १०.  
प्रद्वव<sup>१</sup>- -वाणाम् वाधृश्रौ ३, ८३ :  
२.

प्रद्वव- पा ३, ३, २७; -त्रान्<sup>१</sup>  
वौश्रौ १५, ६ : २३; ९ : १२.

प्रद्ववित्- पा ३, २, १४५.

प्रद्वविणी- -णी कौसू ८९, ९.

प्र<sup>०</sup>द्विप्, प्रद्विप अप ३६, ९, ३.

प्र<sup>०</sup>द्वक्षत्- प्र<sup>०</sup>द्वह द्र.

प्र<sup>०</sup>धन् > प्र<sup>०</sup>धन्<sup>०</sup>- -नः या ९,  
२३; -ने या ९, २३<sup>३</sup> कौ<sup>३</sup>.

प्र<sup>०</sup>धन्व्, प्रधन्वति वौश्रौ १४, ८ :  
३६; प्रधन्व > न्वा ऋप्रा ८, ७;  
साग्र १, ५६७<sup>३</sup>; प्र(धन्व) ऋग्र  
२, ९, १०९.

प्र(अधन्विपुः) ऋअ २, ९, २४;  
साग्र २, ३११.

प्र<sup>०</sup>धम्, प्रधमन्ति वौश्रौ १५, ३७:४.  
प्र<sup>०</sup>धा, प्रदध्यात् अत्राय २, ९.

a) विप. । वस. । b) कस. > द्वस. > वस. । c) कस. > पस. > पस. । d) वैप १ द्र. ।

e) पदोपे (प्रदोपो इति सूक्तो.) पाठः? यनि. शोधः ।

f) पूष. = कालपरिमाण- इति [पक्षे] भाष्यम् ।

g) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । प्रदो- इति MW. ।

h) व्यप. । व्यु. ? ।

i) = प्रद्वव- । j) = मन्व-

विशेष-, (उपचारात्) होम- ।

प्रधान, ना<sup>१</sup> - नः भाग्य १, ११ : ५;  
 अप ७०<sup>२</sup>, ७, ९××; -नम् शाश्रौ  
 १, १६, ३; काश्रौ; -नस्य हिश्रौ  
 १, १, ६३; कप्र; -ना वैग्य ३,  
 २० : २; अप ५९, १, ८; विघ  
 ९९, ४; -नाः वैग्य २, १२ : ५;  
 अप; -नात् आश्रौ २, ११, १६;  
 आपश्रौ २, २१, २; मीसू १०, १,  
 ५; -नात् वैग्य २, १३ : १५××;  
 वैध २, १, ९; -नानाम् वाश्रौ  
 १, १, १, ६५; ७०; हिश्रौ; -नानि  
 आपश्रौ ३, १६, १०××; वाश्रौ;  
 -ने शुप्रा २, २७; पावा; -०ने  
 विघ ९९, ३; -नेन मीसू ४, ३,  
 ३८; ६, ३, ३; ११, २, ७; -नेषु  
 वाश्रौ १, १, ५, १४; वृदे ५, ९६;  
 मीसू ४, ४, ३२; -नैः आपध २,  
 ८, १३; हिघ २, १, ११५.

प्राधान्य- -न्यम् कप्र ३, १०,  
 ९; वृदे १, ७५××; मीसू;  
 -न्यात् काश्रौ ५, ११, १९; १५,  
 ४, १८××; -न्ये हिश्रौ १७, १,  
 २६; -न्येन वृदे १, ६; या १,  
 २०; २, १३; २४; ११, २.

प्राधान्य-तस्य (ः) वृदे ५,  
 १०७; ८, ६२.

प्राधान्य-स्तनित- -तानि  
 अप ६४, ५, २.

प्राधान्य-स्तुति<sup>१</sup> -ति  
 या ७, १३; -तीनाम् या १, २०;  
 ७, १.

प्रधान-कर्मन्- -र्मणि पावा १,  
 ४, ५१.

प्रधानकर्मा(र्म-अ)र्थ-त्व-  
 -त्वात् मीसू ११, १, ५३.

प्रधान-कारिन्- -रिणः वाश्रौ १,  
 १, १, १४.

१प्रधान-काल- -ले आनिय १,  
 ७, ४ : १०.

२प्रधान-काल<sup>१</sup> -लेषु वौग्य ३,  
 २, ५.

प्रधानकाल-त्व- -त्वात्  
 काश्रौ ४, ७, २२; २६, ६, २८;  
 मीसू ११, १, ६८.

प्रधान-गुणभू(त>)ता- -ताः  
 वृदे ५, ९६.

प्रधान-तर->१-च्छन्दस<sup>१</sup> -  
 -सः निसू ७, ५ : १३.

प्रधान-तस्य (ः) वौध १, १०, ३७;  
 वृदे ५, ११०××; मीसू १, ४, ३.

प्रधान-ता- -ता अप २२, ६, ४.

प्रधान-त्व- -त्वम् कप्र ३, १०,  
 १०; -त्वात् पाग्य २, ५, २०;  
 मीसू ३, ७, १६××; -त्वे अप  
 ७०, १, ६.

प्रधान-देवता- -ताः भाग्य २, ६,  
 ४; -ताभ्यः हिपि २० : १२;  
 -ताम् वौश्रौ २९, २ : ५.

प्रधान-द्रव्य-व्यापत्ति- -त्तौ  
 काश्रौ १, ७, २७.

प्रधान-पूरणी-ग्रहण- -णम् पावा  
 ५, ४, ११६; ६, ३, ३३.

प्रधान-प्रत्ययार्थ-वचन<sup>१</sup> -नम्  
 पा १, २, ५६.

प्रधान-भाव- -त्वात् पावा २, १,  
 ५७; ३, ४, १०२.

प्रधान-भूत- -तानाम् आश्रौ  
 ३, १४, ६; -तानि मीसू २, ४, ७.

प्रधानभूत-त्व- -त्वात् मीसू  
 ६, २, ५; १०, ८, ३६.

प्रधान-यान- -गात् वैश्रौ २०,  
 १९ : ५.

प्रधान-योग- -गात् काश्रौ १,  
 ४, १७.

प्रधान-लोप- -पे अप्राय ४, २.  
 प्रधान-वत् मीसू ६, ४, ४; ११,  
 २, ६; ३, ३१.

प्रधान-वैगुण्य- -ण्यात् मीसू  
 १२, १, १५.

प्रधान-शब्द-त्व- -त्वात् मीसू  
 ५, २, १९; ११, २, १०; ४, २४.

प्रधान-शब्द-संयोग- -गात्  
 मीसू ४, ३, २४<sup>६</sup>; १०, ८, ५३.

प्रधान-संयोग- -गात् मीसू १०,  
 १, ४.

प्रधान-संनिपात- -ते हिश्रौ १,  
 ६, ४१.

प्रधान-हविस्- -वीपि आश्रौ २,  
 १५, ८.

प्रधान-होम-मन्त्र- -न्त्रान्  
 वैताश्रौ १, ४.

प्रधाना(न-अ)ङ्ग- -ङ्गे या ९, ३१.

प्रधाना(न-आ)दि- -दौ वौग्य ४,  
 ५, ५; -दौऽ-दौ वौग्य ३, १३,  
 २; ४, ६, २.

प्रधाना(न-अ)न्त- -न्ते वौग्य ४,  
 ५, ६.

प्रधाना(न-अ)नन्तर्य- -र्यम्  
 हिश्रौ २२, ४, २०.

प्रधाना(न-अ)पवर्ग- -र्गे मीसू  
 ११, ३, १७.

१प्रधाना(न-अ)र्थ- -र्थम् अप  
 ६२, ४, ७<sup>१</sup>.

२प्रधाना(न-अ)र्थ<sup>१</sup> -र्थः कप्र  
 ३, १०, १४; -र्थम् मीसू १०, ३,

a) विप., नाप. । कर्त्रार्थे कृत् (तु. अभा.) । b) वस. । c) विप. समासान्तः क्व प्र. टसं.  
 (पा ५, ४, ७५) । d) कस. > कस. (तु. पाप्ति.) । e) 'संप्रयो' इति जीव. प्रत्य. । f) पाठः ? विधानार्थम्  
 इति शोधः (तु. संस्कृतः टि.) ।

<p>११; -र्थस्य मीस् ११, ३, १८.          प्रधानार्था(र्थ-अ) भिसंयोग-          -गात् मीस् ११, २, ४.          प्रधाना(न-अ)वभृथ- -थः अप          ३३, ७, ६.          प्रधाना(न-अ)हुति- -त्तीः वाश्रौ          १, ३, ४, २९; आमिथ १, ६, २ :          ८; ३, ११, ४ : ११; आपथ.          प्रधानाहुति-काल-तस् (:)          जैश्रौका ४०; ६४.          प्रधानाहुति-वेला- -लायाम्          जैश्रौका ३९.          प्रधाने(न-इ)ज्या- -ज्यायाः          काश्रौ २५, ५, १५.          प्रधानो(न-उ)पसर्जन- -नानाम्          पावा २, १, ६९.          प्र-धि<sup>१</sup>- -धयः या ४, २७<sup>१</sup>र्क;          -धिः या ४, २७; -<sup>१</sup>धी क्रप्रा          २, ७२; तैप्रा ४, १२; -धीन्          वौशु ७ : १२; -धीनाम् वौशु          १८:५; २१:५; -धौ आपशु १३,          २; वौशु १६:६; हिशु ४, ३४.          प्रधि-क- -कम् आपशु ७, ८;          हिशु २, ५८.          प्रधि-प्रकार<sup>२</sup>- -रे माश्रौ २, २,          ३, ३५.          प्रधि-मध्य(म&gt;)मा<sup>३</sup>- -माः          वौशु १८ : ५; २१ : ५; -माम्          वौशु १८ : ७.          प्रधि-मुख<sup>३</sup>- -खे आपश्रौ ११,          १३, १; हिश्रौ ७, ६, २८.          प्रधि-युक्त- -क्तानि वौशु १६:२.</p>	<p>प्रध्य(धि-अ)नीक- -केषु वौशु          ७ : १३; १६ : ७.          प्र-हित- -तः या ४, २७; -तम्          आश्रौ ३, १०, १६<sup>४</sup>.          प्र-धान- प्र√धा द्र.          प्र√धाव् (गतौ), प्रधावति शांश्रौ ३,          ८, २७<sup>५</sup>; अप ५८<sup>६</sup>, २, ७××;          प्र...धावतु आपमं १, १५, ६.          प्र√धाव् (शुद्धौ), प्रधावते आमिथ          १, ३, ३ : ६<sup>७</sup>; प्रधावतः आपश्रौ          ८, ८, १६; १३, २१, २.          प्रधावयेत् कप्र १, १०, २.          प्र-धाव्य वौश्रौ १७, ४० : २१;          आमिथ १, ३, ३ : ६.          प्र√धास्<sup>१</sup>, प्रधास्येत् भाश्रौ १०,          १२, १४<sup>८</sup>.          प्र-धुर<sup>२</sup>- -रे आपश्रौ १२, २, १२;          ६, ११; माश्रौ.          प्र√धूमाय (&lt;धूम-), प्रधूमायन्ति          अप ७२, ४, ४.          प्र√धु, प्रधारयन्तु आथ ३, १२, १४<sup>९</sup>.          प्र√धृप् &gt; प्र-धृष्यमाण- -णाः आश्रौ          २, ११, १८.          प्र-धृष्टि- -ष्टिः शांश्रौ ८, २४, ३<sup>१</sup>.          प्र√धे, प्रधापयेत् माथ १, १७, ७;          वाथ २, ९.          प्र√ध्वै, प्रध्यायत गोथ ३, १०, १७<sup>१</sup>.          प्र√ध्वंस, प्रध्वंसयते वौश्रौ ४, ११ :          १२; १६; २०; १४, १३ : १८;          प्रध्वंसयति वैश्रौ १३, १७ : १०;          हिश्रौ १, ५, ६३; २४, ६, १२;          प्रध्वंसयेत् वौथ ४, २, ६; हिथ</p>	<p>१, १६, ४<sup>१</sup>.          प्र√नभ्, प्रनभताम् अप्रा ३, १, ७;          प्रनभस्व कौस् ४१, १; १०३, ३;          अप ६५, ३, २; ४; अत्र.          प्रनाकाफान<sup>१</sup> आश्रौ २, १०, १४.          प्र√नृत्, प्रनृत्यन्ति अप ७०<sup>३</sup>, ८, ३.          प्र-नृत्त- &gt; न्त-प्रेतमार्जारिवाराहा-          (ह-अ)नुग (त&gt;)ता- -ताः          अप ५८<sup>३</sup>, ३, १.          प्रन्यतिशिल्पे वाश्रौ ३, २, २, १४.          प्र√पच् &gt; प्र-पाक<sup>१</sup>- -कम् कौस्          ८३, १४; ८४, ३.          प्र√पञ्च् &gt; प्र-पञ्च- पाग ८, १, २७.          प्र√पट्, प्रपठ्यते अप २३, ११, २.          प्र-पठित- -तम् उस् ८, ३६.          प्र-पण<sup>२</sup>- -णः शौच ४, ९७; -णम्<sup>३</sup>          भाथ २, २६ : ७; हिथ.          प्र-पणत्- -णन् आपमं २, २२, ४<sup>४</sup>.          प्र√पत् (गतौ), प्रपतति अप ३७,          १७, १; प्रपतन्ति अप ५१, ४,          २; ५७, २, ४; ६८, १, ४७; या          २, ६; प्रपतात् माथ २, १७,          १<sup>५</sup>; प्रपतान् या २, ६<sup>५</sup>; प्रपत          भाथ २, २८ : १६; कौस् १८,          १६; अप; प्रपतत अत्र ६,          ८३<sup>६</sup>; अपं २ : ५६; प्रपताम          पु ८, ४; प्रपतेत् आपश्रौ २२,          २१, १०; वौश्रौ ९, १७ : ६;          १६; वाधूश्रौ; या ७, ३<sup>७</sup>; प्र...          पतेत् वाधूश्रौ २, २० : १;          प्रपतेयाताम् अप्राय ६, १.          प्र (पिपतिपति) अत्र १२, २<sup>७</sup>म.</p>
--	--	---

a) वैप १ द्र. । b) वसः । c) = इष्टका- । d) पाभे. वैप २, ३खं. प्रभृत्तम् तैत्रा १, ४, ४, १० टि. द्र. । e) सपा. वौश्रौ १७, ४० : २१ विधावयते इति, वौगुप १, ३, ३० विधावते इति च पाभे. । f) = प्र√धा (प्र√हा [त्यागे] । g) सप्र. वैश्रौ १२, १४ : ९ त्वरया स्वयं प्रयाति इति पाभे. । h) नाप. । प्रास. समासान्तः अच् प्र. (पा ५, ४, ७४) । i) पाठः ? । पाभे. वैप २, ३खं. ?कनाल्काभाम् तैत्रा २, ४, ६, ५ टि. द्र. । j) उप. कर्मणि घञ् प्र. । k) पाभे. वैप १, २१८०, २१५० b च द्र. । l) पाभे. वैप १, २१८० k द्र. । m) पाभे. वैप १, २१८० i द्र. ।

प्र-पतत्- -ततः कागृ ४०, १३;  
वागृ ४, १४.  
प्र-पतन- पाग ३, ४, ७४.  
प्र-पतित, ता- -तः अप्राय २, ९;  
-तम् वाधूश्रौ ३, ७७ : २; -ता  
वाधूश्रौ २, २० : ६.  
प्र-पात- -ते पावा ३, ३, १०४.  
प्र-पथ<sup>१</sup>- -थात् वाधूश्रौ ३, १८ : ११;  
-थंथे आश्रौ ३, ७, ८; शांश्रौ  
१५, १९, १; वौश्रौ; या ११,  
४६.  
प्र/पद्, प्रपद्यते आश्रौ १, १, ४; ५,  
१२, १; आपश्रौ; कौगृ ३, ३, ६<sup>b</sup>;  
प्रपद्यते वौश्रौ ७, ११ : ३; वौध  
१, ७, २१; वेज्यो ७; प्रपद्यन्ते  
वौश्रौ ७, ११ : १०××; माश्रौ;  
†प्रपद्ये आश्रौ १, २, १; ४, ८<sup>३</sup>;  
२, ५, १७<sup>c</sup>; शांश्रौ; वैश्रौ १८,  
१४ : १५<sup>c</sup>; हिश्रौ ६, ७, ८<sup>c</sup>;  
आपमं १, १०, ३<sup>d</sup>; ६<sup>d</sup>; कौगृ ३,  
४, ३<sup>c</sup>; कागृ २७, ३<sup>c</sup>; वौगृ  
१, ५, ७<sup>c</sup>; ६, १२<sup>d</sup>; भागृ १, १९ :  
१४<sup>d</sup>; १७<sup>d</sup>; मागृ २, ११,  
१६<sup>c</sup>; वागृ १५, १७<sup>c</sup>; प्रपद्यामि  
अप २०, ६, १; प्रपद्येताम् सु २,  
२; प्रपद्यस्व वृदे ६, २२; प्र-  
पद्यस्व वौगृ २, ६, १४; प्रापद्यत  
वाधूश्रौ ४, २६ : २८; २९××;  
प्रपद्येत आश्रौ २, ५, १७;  
आपश्रौ १२, २६, १४; वौश्रौ;  
शांश्रौ ३, ४, ९<sup>b</sup>; †प्रपद्यात्  
शंघ १०३; प्रपद्येरन् वैश्रौ १२,  
१२ : १; वैगृ ५, ६ : ८; वौध

१, ७, १७; प्रपद्येयम् मागृ २,  
१३, ६<sup>१</sup>.  
प्रापत्सत वौश्रौ ७, ७ : १५.  
प्रपादयति आपश्रौ ११, १७, ८;  
१२, ६, ९××; वौश्रौ; प्रपादयन्ति  
शांश्रौ ५, ६, ४; वैश्रौ; प्रपादयीत  
हिश्रौ १०, ४, १३; मागृ १, १४,  
१; प्रपादयेत् वौश्रौ २५, ९ :  
१३××; वागृ २, १; १५, १४.  
प्र-पत्स्यमान- -नाः शांश्रौ ६, १२,  
१२.  
प्र-पद्<sup>१</sup>- -पदः शांश्रौ ६, २, १.  
प्र-पद्<sup>२</sup>- -दः गोगृ ४, ५, ७; -दम्  
गोगृ ४, ५, १४; द्रागृ १, २, २२;  
४, १, ७; कप्र १, ९, ५.  
प्र-पदन- -नम् वौश्रौ २४, २८ : १;  
२७, १२ : १९; वाधूश्रौ ३, ८१ :  
२; जैश्रौ ८ : ३; -नस्य जैश्रौ  
१३ : १; १८ : १.  
प्रपदना(न-अन्त)- -न्तम्  
वैताश्रौ १, १९.  
प्रपदनीय- पावा ५, १, १११;  
-यः कौगृ ३, ४, ३<sup>६</sup>.  
प्र-पद्य आश्रौ १, १, २३××; शांश्रौ.  
प्र-पद्यमान, ना- -नः काठश्रौ १४०;  
-नम् आश्रौ ४, १०, ५; वौश्रौ  
२५, २० : १३; -नान् वैगृ ५,  
६ : ६; -नाम् वृदे ७, १३१;  
-ने भागृ १, २३ : २०<sup>b</sup>.  
प्र-पन्न, न्ना<sup>१</sup>- -न्नः वौश्रौ ४, ४ : ११;  
२५, २० : १०; अप ४, ३, ५;  
-न्नम् गोगृ ३, ५, ७; जैगृ १,  
१९ : २६; वृदे ६, १५२; -न्ना

वौश्रौ ६, २६ : २९; विध १,  
५८; -न्नाः वौश्रौ १७, १२ : २;  
-न्ने वौश्रौ ६, २४ : १३;  
जैश्रौ ३ : ९.  
प्रपन्न-द्विःपन्न-पर्युषित- -तानि  
द्रागृ ३, १, ३६.  
प्र-पादयत्- -यन् आपगृ ६, ८.  
प्र-पाद्य आश्रौ ३, १, १६; ६, १०,  
२०; काश्रौ; शांश्रौ १, १५, ९<sup>१</sup>.  
प्र-पाद्यमान, ना- -नाम् वैताश्रौ १३,  
५; -नासु आपश्रौ १४, ९, ३;  
हिश्रौ १०, ८, ४१; -ने आश्रौ ४,  
४, ५; १०, १३; शांश्रौ ५, १४,  
१७; २२.  
प्र-पद्<sup>३</sup>- -दात् कौसू ७, १७××;  
-†दाभ्याम् आपमं १, १७, ४;  
अथ ११, ३(२); -देन आश्रौ १,  
१, २३; ४, ४, २; शांश्रौ.  
प्र-पद्<sup>४</sup>- -दः माशि १४, ७<sup>३</sup>.  
प्र/पशु, प्रपश्यन्ति अप ६८, १, १३;  
प्रपश्यामि विध २०, २२;  
†प्रपश्यन् आपश्रौ १८, ६, ४;  
वाश्रौ ३, १, २, २४; हिश्रौ १३,  
२, १८; प्रापश्यन् या ७, २९<sup>१</sup>.  
प्र/पा (पाने), प्रपिबन्ति या ११, ५.  
प्रपाययति कागृ ३४, ६.  
प्र-पा<sup>१</sup>- पावा ३, ३, ५८; -†पा अथ  
३, ३०; ऋप्रा २, ५९; तैप्रा १०,  
१३; अप्रा २, २, १५; -पाः वाघ  
१९, १८; -पाम् कौसू १२, ९;  
१९, ३.  
प्रपा(पा-अन्त)<sup>१०</sup>- -न्तानि कौसू  
३५, १९.

a) वैप १ द्र. । b) सपा. ष्यते <> ष्यत इति पाभे. । c) पाभे. वैप १, १०-२४ d) द्र. ।  
d) पाभे. वैप २, ३खं. उपधात्वामि मंत्रा १, ४, १ टि. द्र. । e) =मन्त्र-विशेष- । f) वैप २, ३खं. द्र. ।  
g) सपा. शांश्रौ ३, ५, ३ प्रवचनीयः इति पाभे. । h) ष्या<sup>१</sup> इति पाठः? यनि. शोधः । i) उप. कर्तरि क्तम् ।  
j) सपा. कौगृ १, ९, १३ प्रवेश्य इति पाभे. । k) =पादाप्र-। प्राप्त. । l) वस. । m) उप. =भुवन्तादि- ।  
n) प्रपश्येत् इति C. । o) व्र<sup>१</sup> इति पाठः? यनि. शोधः (तु. संस्कर्तुः टि.) ।



प्र√पा (रक्षणे), प्र...पाहि वीगृ २,  
६, १४<sup>क</sup>।

प्र-पात- प्र√पत् द्र.

प्र-पादयत्- प्रमृ. प्र√पद् द्र.

प्र-पितामह<sup>क</sup> - <sup>क</sup>ह आश्रौ २, ६,  
२४; आपश्रौ १, ९, १५; वीश्रौ  
२, १० : २५<sup>द</sup>; २६; ३, १० :  
२२<sup>द</sup>; ५, १५ : ६×५<sup>द</sup>; २४,  
३२ : १८<sup>द</sup>; वाश्रौ १, २, ३, १६<sup>द</sup>;  
१८; हिश्रौ २, ७, २७<sup>द</sup>; आपमं २,  
१९, १६; २०, १०<sup>द</sup>; आगृ; आमिगृ  
३, १, ३ : ७<sup>द</sup>; भागृ २, १३ :  
१<sup>द</sup>; हिगृ २, १२, ३<sup>द</sup>; -हः वीश्रौ  
२४, २६ : १४; जैश्रौ; -हम्  
आपश्रौ २, २१, ७<sup>क</sup>; वीश्रौ;  
-हस्य वाश्रौ ४, ४, ४;  
वीश्रौ; -<sup>क</sup>हाः आश्रौ २, ६,  
१४; आपश्रौ; -<sup>क</sup>हाः जैश्रौ  
१८ : १७; आमिगृ ३, १, ३ :  
१५; १६; भागृ २, ११ : ६;  
-<sup>क</sup>हात् वीश्रौ २, १० : ६<sup>क</sup>;  
माश्रौ १, ७, ६, ४६; आपमं २,  
१९, ६<sup>क</sup>; आमिगृ ३, १, १ : १८<sup>क</sup>;  
वीगृ २, ११, २७<sup>क</sup>; भागृ २, ११ :  
१७<sup>क</sup>; हिगृ २, १०, ७<sup>क</sup>; विध  
७५, ६९; -हान् आमिगृ २, ६,  
३ : ४६×४; वैगृ ४, ६ : ३; वीध  
२, ५, २८<sup>क</sup>; -<sup>क</sup>हानाम् आमिगृ  
३, १, २ : २०; २, ३ : ९; वीगृ;  
-हाय आश्रौ २, ६, १५; ६, १२,  
९<sup>क</sup>; वीश्रौ; माश्रौ २, ५, ४, ११<sup>क</sup>;

-हे विध ७५, ३; -हेभिः भागृ  
३, १७ : ९; -<sup>क</sup>हेभ्यः आपश्रौ १,  
९, ९; वीश्रौ; आमिगृ ३, १,  
३ : १०<sup>क</sup>; कौसू ७३, ६<sup>क</sup>;  
-<sup>क</sup>हैः वीश्रौ ६, ३१ : २२;  
वीषि २, १२, ४.

प्रपितामही - ०हि आपमं २,  
२०, १३<sup>क</sup>; -<sup>क</sup>ही आपमं २,  
१९, ५; आमिगृ ३, १, १ : २२;  
हिगृ २, १०, ७; -हीः आमिगृ  
२, ६, ३ : ४७; ५१; वीध २, ५,  
१८<sup>क</sup>; -हीभ्यः आमिगृ १, २,  
२ : ३२×४; वीगृ २, ११, ३४<sup>क</sup>;  
-ह्यः आपमं २, २०, ७<sup>क</sup>; -ह्यै  
शंघ ११६ : ७३; विध ६७, २३;  
७४, १.

<sup>क</sup>प्रपितामह-पत्नी - <sup>क</sup>लीभ्यः वैगृ १,  
४ : २०; ४, ४ : १०.

प्रपितामह-प्रभृति- <sup>क</sup>तीन् आपश्रौ  
१, ९, ४.

प्रपितामहा(ह-आ)दि- <sup>क</sup>दि आपध  
१, २, ५; हिध १, १, ३८.

<sup>क</sup>प्रपित्व(त्-त्र)<sup>क</sup> - <sup>क</sup>त्वम् वाश्रौ १४,  
४९, ३; -<sup>क</sup>त्वे<sup>क</sup> आपमं १, १४, ४;  
अप ४८, ६०; ११७; निघ ३,  
२९; या ३, २०.

प्र√पिप् > प्र-पिष्ट - <sup>क</sup>ष्टानाम् काश्रौ  
५, १, ४.

प्रपिष्ट-तम- <sup>क</sup>मैः या ६, १२<sup>क</sup>.

प्र√पीड् > प्र-पीड्य काश्रौ २४, ३,  
३६; आपश्रौ.

प्र-पुट<sup>क</sup> - <sup>क</sup>टे कौसू २५, ३०.

प्रपुनाद्- पाठमो २, २, १००.

प्र√पुप्, प्र (सुप्यन्ति) शाश्रौ ९, २४,  
९<sup>क</sup>.

प्र√पू > प्र-पावन- <sup>क</sup>नः अप ३८, १,  
३.

प्र-पुन्वत्- <sup>क</sup>न्वद्भ्यः<sup>क</sup>, <sup>क</sup>न्वन्तः<sup>क</sup>  
आपमं २, १८, ३८.

प्र√पूज्, प्रपूजयेत् अप १९<sup>क</sup>,  
५, ३.

प्र-पूजित- <sup>क</sup>ते अप ३८, १, २.

प्र√पृ, प्रपूरयेत् आमिगृ २, ४, ७ : ६.

प्र-पूर्य आमिगृ २, ४, ७ : १७.

प्र-पौत्र<sup>क</sup> - <sup>क</sup>त्रः वीध १, ५, ९५; -<sup>क</sup>त्राः  
निसू १०, ९ : २३; गोपि १,  
७, ९<sup>क</sup>.

प्र√प्याय्, <sup>क</sup>प्यै, प्रप्यायते या ११,  
४२; प्रप्यायस्व<sup>क</sup> हिगृ २, ४, ३<sup>क</sup>;  
<sup>क</sup>प्रप्याय<sup>क</sup> आपमं २, १३, २;  
आमिगृ २, १, ४ : १८; भागृ १,  
२५ : १०.

प्र-पीन, ना- <sup>क</sup>नम्<sup>क</sup> माश्रौ ६, २, ६,  
२०; वाश्रौ २, २, ५, ६; वागृ १,  
३१; श्रुप्रा ३, ९०; -<sup>क</sup>ना आपश्रौ  
४, १०, ७; माश्रौ; -<sup>क</sup>नाः आपमं  
१, १४, ७<sup>क</sup>; अप्रा ३, १, ७<sup>क</sup>;  
-<sup>क</sup>ने आपश्रौ २१, २०, ७<sup>क</sup>.

<sup>क</sup>प्र-प्यात- <sup>क</sup>तम्<sup>क</sup> आपश्रौ १६,  
१२, ११; हिश्रौ ११, ५, ७.

प्र√पुशू > प्र-प्रोथ<sup>क</sup> - <sup>क</sup>थयोः<sup>क</sup> वैश्रौ  
१७, १३ : ५; -<sup>क</sup>थेपु<sup>क</sup> आपश्रौ

- a) पामे. वैप २, ३खं. प्र...भाहि तैश्चा ७, ४, ३ टि. द्र. । b) आहि इति सूको. । c) नाप. ।  
प्रास. । d) पामे. वैप १, २१३९ b द्र. । e) पामे. वैप १, २१८२ l द्र. । f) पामे. पृ १५७३ v द्र. ।  
g) सपा. 'हाय <>' 'हेभ्यः इति पामे. । h) वैप १, ६६२ h द्र. । i) वैप १, २१८२ o द्र. ।  
j) तु. दु. राज. । वैतु. ल. 'पिष्ठ' इति । k) =द्व-पुट- । प्रास. । l) सपा. हिगृ २, ९, २ प्रयुम्भ<sup>क</sup> इति  
पामे. । m) परस्परं पामे. । n) पामे. वैप १, २१८३ j द्र. । o) पामे. वैप १, २१८३ f द्र. ।  
p) पामे. वैप १, २१८३ k द्र. । q) वैप १ द्र. । r) सप्र. आपश्रौ १८, ४, १५ थ्येपु

३८, ४, १५; बाश्री ३, १, ४३;  
 हिश्री ३३, १, ५०; ३१.  
 प्र०/स्तु, प्रहावयति वीश्री ६, २ : ६;  
 ३ : ७; कौस्तु ४६, २८; ४८, ६;  
 प्रहावयति वीश्री ८, २० : १३;  
 प्रहावयेत् वीश्री २२, १३ : १३;  
 प्रहावयेतुः वीश्री २३, २४ : २४.  
 प्र-हावन-ने वीश्री २३, २४ :  
 २१; २५ : १.  
 प्र-हावन् वीश्री २२, १३ : २२; हिश्री  
 ३०, ५, ३०; नाशु ३, १२, ५.  
 प्र-हावि, वीश्री - कौस्तु वीश्री ६, २३;  
 नाशु २, ३५; ३५; नाशु ५, ८.  
 प्र-हावि-दा- -दाः वीश्री ३३, ११ : ११.  
 प्र-हावि-दा- -दाः हिश्री ३३, ८,  
 १०.  
 प्र०/स्तुत्, प्रहावते याति २, ३५.  
 प्र०/वृष्, वृष्, प्रवहाति आपश्री  
 २३, १७, १३; कौस्तु २६, २२;  
 प्रवहन्ति आपश्री ३८, ४, ४;  
 २३, १८, ११; हिश्री ३३, १, १०.  
 प्र-वह, दा- -दाः अप ७०, १८, १;  
 -दाः अप ३, ३२, २; -दाः  
 आपश्री ३२, ३, ३; -दाः अप  
 ७३, २, १.  
 प्र-वह-वित्तना(न-जा)घ(दि-  
 अ)श्री - -दाः नाशु ४, ५, ५.  
 प्र-वहा(ह-अ)इशु - -दाः नाशु  
 कौस्तु ३५, २५.  
 प्र-वह्य वीश्री ३, १९, ९; आपश्री.

प्र-वहन् - -दाः हिश्री ३३, २, ५.  
 प्र-वहन् - -दाः वीश्री ३०, २२ :  
 १०; १५.  
 प्र-वहन् - -दाः अप ५५, २, ३.  
 प्र०/वाष्, प्रवाश्री वा ३, ८.  
 प्र-वाशिव- -दाः तु २, २.  
 प्र-वाशि(व >)श्री - -दाः वीश्री ३,  
 ११, १.  
 प्र-वाशु - -दाः वीश्री २२, ५.  
 प्र-वाशु - आपश्री ३२, १, १२; १३;  
 वीश्री ३, १३; ८; ११; २०, १३;  
 ७; ८; नाश्री.  
 प्र-वाशु - नाशु २, १, ३५.  
 प्र०/वृष्, प्रवृष्णात् - आपश्री ३,  
 ४, ८; कौस्तु ३, ५, २ : ५;  
 वीश्री प्रवृष्णात् कौस्तु ७७, १३;  
 अप ४६, २, १; ३, ५.  
 (प्र)वृष्णात् अप २०, १४२.  
 प्रवृष्णात् वीश्री ३, १, ३;  
 प्रवृष्णात् कौस्तु ७३, १; ७७,  
 १३; वीश्री ७३, ५.  
 प्र-वृष्, दा- -दाः वीश्री ३, ८, १९;  
 नाशु २, ८, १; -दाः अप ७७,  
 ३, २६; -दाः अप ३५, १,  
 ३१; -दाः वीश्री ३, १.  
 प्र-वृष्-दा- -दाः वीश्री ३,  
 ७ : ५; १९; २३, १० : १०;  
 प्र-वृष् - -दाः वीश्री ३, ५ : ३.  
 प्र-वृष् आपश्री ३०, १८, २५;  
 वीश्री ३०, ११, ११; वीश्री ३२,  
 १३ : ५.

प्र-वृष्णात् - आपश्री ३, १, ३,  
 ११.  
 प्र-वृष्णात् - आपश्री ७०.  
 प्र-वृष्णात् - आपश्री २, १३, १४.  
 प्र-वृष्णात् - आपश्री ८, १३, १३; -दाः  
 वीश्री ३३, ५.  
 प्र-वृष्णात् - आपश्री २, २, १९.  
 प्र०/वृष्, प्रवृष्ति वीश्री ३३, १२ : ४;  
 प्र-वृष्णात् वीश्री ३३, १२ :  
 ५ : ७; हिश्री ८, २, ३८.  
 प्र-वृष्णात् वीश्री ३, १, १३.  
 प्र-वृष्णात् वीश्री ३, ८, २; हिश्री ८,  
 ३, ५.  
 प्र०/वृष्, प्र-वृष्णात् वीश्री ३, ५, ५.  
 प्र-वृष्णात् वीश्री ३, १५ : ३, २, ३.  
 १ : ३; प्र-वृष्णात् वीश्री ३, ५, ५;  
 वीश्री वीश्री ३, १, १; वीश्री  
 वीश्री ३०, १, १; वीश्री वीश्री ३,  
 १, १५; २, ३; वीश्री ३, २, ५;  
 आपश्री ३, १८, १; वीश्री ३, २,  
 ३, १; वीश्री वा ७, २, ३;  
 ३०, ४, २; वीश्री ४, २; वीश्री  
 आपश्री ३०, २, ५; वीश्री ३,  
 ५ : ३०; नाश्री; वा ८, ३;  
 वीश्री वीश्री ३, १, १; वीश्री  
 वीश्री ३, ५, १; वीश्री  
 वीश्री आपश्री ३, १, ३; वीश्री  
 ३, १, ३; हिश्री ३, ३, ३;  
 वीश्री वीश्री ३, ३, १;  
 वीश्री आपश्री ३, १, १;  
 वीश्री वीश्री ३, १, १;  
 वीश्री वीश्री ३, १, १;

a) वष ३ द. 1    b) पाने. वैष ३, २१ ८३ २ द. 1    c) पाने. वैष ३, २१ ८३ ८ द. 1    d) पाने. पाने.  
 पाने <> पाने इति पाने. 1    e) पाने. प्रवहन्ति <> प्रवहन्ति इति पाने. 1    f) वृष् इति वृष्. 1  
 g) वष. वषेति वृष् २. 1    h) वृष्. 1    i) वष. 1    j) प्र-वृष्णात्. 1    k) पाने. वैष ३ वृष्णात् वृष् ३, ११, २ ति. द. 1    l) वष. (वृष्णात्) 1    m) वष. वैष ३, २, १ प्रवृष्णात् इति पाने. 1  
 वैष ३, २, १० p) वषेति द. 1    n) वा. वषेति इति. 1    o) प्र-वृष्णात् इति वीश्री. 1 पाने. वैष ३, ३, ३, १०  
 प्र-वृष्णात् ति. द. 1    p) वष. प्रवृष्णात् <> प्रवृष्णात् इति पाने. 1    q) पाने. वैष ३, २, १, वषेति वृष् ७, १३ ति. द. 1  
 r) पाने. वैष ३, २, १, ८ द. 1

६; वौश्रौ; ऋप्र...वृत् आपश्रौ  
२४, १३, ३; वौश्रौ ३, २८ : ११;  
हिश्रौ २१, १, २; २, २४; ऋप्रव-  
वाम, >मा आपश्रौ ५, १७, ४;  
हिश्रौ ३, ४, ४८; आपसं २, ५,  
१९<sup>५</sup>; आग्निष्ट; ऋप्रवृत्  
वाधूश्रौ ४, १०८ : २२; २४;  
ऋथ २, १, १९१; प्रावृत् लश्रौ  
८, ४, ६१; ऋप्रवृत् आगृ ३,  
१०, १; गोगृ १, ४, २८; ऋप्रवृ-  
यात् आश्रौ ८, १४, १; काश्रौ  
१२, ३, १९; आपश्रौ; प्रवृत्ताताम्  
वौश्रौ १७, ४ : १३१; प्रवृत्वीरन्  
निसू ६, ११ : २५१; ऋप्रवृयुः  
वौश्रौ १६, ४ : ११; वैश्रौ १८,  
१ : ५४; लाश्रौ ८, ३, १२; १३;  
पागृ.

प्र-वृवत्- -वन् निसू ४, ८ : २१.

ऋप्र-वृवाण- -णः आगृ ३, १०, ९;  
आपथ १, २९, १०; हिध १, ७,  
५७; याए, ४, १०, २२; प्र(वृवाणः)  
साथ १, ५२४; २, ४६६.

प्र✓भृज् > प्र-भाग- -गः काश्रौ  
६, ७, ९.

प्रभाग-पाद<sup>b</sup>- -दः या २, ७.  
प्रभागपाद-सामान्य-  
-न्यात् या २, ७.

प्र✓भृज्, प्रभृज्येत् मागृ २, १५, ६०.

प्रभृज्यन्ते<sup>d</sup> अप ७१, १०, १;

प्रभृज्येत् अप ३७, २०, ११.

प्र-भृज- -ञम् निसू ६, १० : २११.

प्र-भृज्जन- -नेन कौसू १३५, ९१.

प्र-भृजि<sup>e</sup>- -व्यम् आपसं १, १०, १११.

प्र✓भृज्<sup>f</sup>, ऋप्र...भृजत् वौश्रौ ३, ३:  
३; ऋप्रा ५, १८.

प्र✓भा, ऋप्र...भाति<sup>g</sup> आग्निष्ट ३,  
६, १ : २०; वौषि १, ८ : १७;  
ऋप्र(भाति)<sup>h</sup> हिपि ७ : १०; भाशि  
१२१; प्रभाहि आपश्रौ ५, २, ४१.

प्र-भा- -भया विध १, २८१; -भा  
विध ९९, ४; -भानाम् अप ६४,  
३, ६; -ऋभाम् अप २४, २, ३;  
६९, ८, २; वृदे ६, १२६.

ऋप्रभा(भा-अ)न्वित- -ताः अप  
५२, ६, ३; -तानि अप ५२,  
११, १.

प्रभा-युत- -ताः विध १, २७१.

ऋप्र-भात<sup>i</sup>- -ते वैश्रौ १, १० : ७, ९,  
१२ : ५; वैश्र ४, ११ : १०; अप  
३१, ६, १; वाध ४, २६; शंघ.

प्रभातिक<sup>j</sup>- -के अप ६८, २,  
५९१.

प्र-भा(त् >)न्ती- -न्त्याम् शाश्रौ  
२, ६, ३१.

प्र-भाव-, -व्यत्- प्र✓भृद.

प्र✓भाप्, प्रभापन्ते अप ६४, १०, २.

प्र-भाप्य वैश्रौ २०, ५ : २.

प्र-भास<sup>k</sup>- -सः अप ४३, ५, ८; ५२,  
५, २; १०, १; -सम् शंघ ११६:  
६३; -से विध ८५, २६<sup>l</sup>.

ऋप्र✓भिद्, प्र...भिन्दन्ति वौश्रौ  
१५, १ : ३; ऋप्र...भिन्दत्  
वौश्रौ ६, २३ : ६.

ऋप्र-भिन्दत्- -न्दन् आश्रौ ८, १४,

४; वौश्रौ ६, ३० : २४.

प्र-भिन्न- -न्नम् आपश्रौ ५, १, ७;  
-न्नौ सु १४, १.

प्र-भु- प्र✓भृद.

प्र✓भृज् (कौटिल्ये) > प्र-भृज्य  
काठश्रौ १५६; माश्रौ ३, २, ५,  
११; वाश्रौ.

प्र✓भृ<sup>m</sup>, प्रभवते अप २, १, २;  
प्रभवति काश्रौ २५, ५, २१;  
आपश्रौ ९, १६, १२; भाश्रौ; पा  
४, ३, ८३; ५, १, १०१; प्र...  
भवति वाधूश्रौ ४, ११८ : ४१;

प्रभवतः वाध १५, २; प्रभवन्ति  
लाश्रौ १०, ६, १३; शंघ ३७३;  
आपथ १, २३, २; हिध १, ६, १०;  
प्रभवेत् आपश्रौ ९, १५, ९;  
हिश्रौ १०, ७, ३; १५, ४, २९.

ऋप्रभृयासम्<sup>n</sup> वौश्रौ ३, २० : ४;  
भाश्रौ ४, १९, ५; वाश्रौ १, १, ४,  
९; प्र (भृयासम्) आपश्रौ ६, ६,  
८१; ऋप्र...भृत् वौश्रौ १७,  
५० : ११; २८, २ : ३४.

प्रभावय काश्रौ १०, ६, २१;  
वौश्रौ ७, १८-१९ : १××; वैश्रौ.

प्र-भव- -वः आश्रौ ८, १३, ३१;  
पा १, ४, ३१<sup>o</sup>; -वम् वृदे १,  
६१<sup>o</sup>; -वाय वौश्रौ १६, ३५ : १.

प्रभव्य<sup>p</sup>- -व्यम् लाश्रौ १०, १९,  
९.

प्र-भवत्- -वत्सु सु ९, २.

प्र-भविष्णु- -ष्णु विध ९७, १९.

प्र-भाव<sup>q</sup>- -वः आज्यो ६, २०;

a) पाभे. वैप १, २१८५ d द्र.। b) पस. पूष. = कार्पाषण-। c) तु. Knauer। वसं.

प्रभजेत् इति ?। d) कर्मकर्तारि रूपम्। e) = प्रफर्वी- (वैप १ द्र.)। इह < प्र✓भृत् इति विशेषः। f) पाभे.

वैप १, २१८३८ द्र.। g) वैप १ द्र.। h) पाभे. वैप १, २१८५० द्र.। i) = प्रातः-काल-। j) विप.।

तात्रभविकृष् ठन् प्र. उर्स.। k) = वसु-विशेष-। व्यु. ?। l) = तीर्थ-विशेष-। m) या २, ७, ३, १३ परामृष्टः द्र.।

n) पाभे. वैप १, २१२२ p द्र.। o) = उत्पत्ति-स्थान-। अपादाने कृत्। p) विप.। तत्रभविकः यत् प्र.।

q) प्रास. इति पाका. प्रमृ. [३, ३, २४]।

-त्रम् अप ६९, १, ५; -वत्य  
 वृदे ४, ८२; -वात् वृदे १, ३४;  
 ८, ३४.  
 प्र-भावयत्- -यन् काश्रौ १०, ६,  
 १४; -यन्तः काश्रौ २५, १२, २५.  
 प्र-भु<sup>०</sup>- पा ३, २, १८०; -भवः हिश्रौ  
 १६, ८, १४; -सु वाघुश्रौ ३,  
 ८३ : १०; ४, ७४ : २९; -सुः  
 आपश्रौ १२, १२, १३१; हिश्रौ  
 ८, ३, ४२१; अप्रायः या १४,  
 ११; -सुम् शंघ ११६ : ५७<sup>०</sup>;  
 आपघ १, २२, ६; विघ १, ५८;  
 हिघ १, ६, ६; या १४, ३०;  
 -मृणि हिग् १, २५, ११; -०भो  
 अप ४, २, १०××; वृदे ६, ५४;  
 -भोः ऋप्रा ५, ३९१; -भौ पा  
 ७, २, २१.  
 ङ्रम्ब्री<sup>०</sup>- -वी आपश्रौ  
 ५, १५, २; वौश्रौ २, १८ : ९;  
 हिश्रौ ६, ५, १५.  
 प्रमु-न्ता- -ता मीसू १०, ३, ८.  
 प्रमु-न्त्व- -त्वम् वृदे २, ६; ७,  
 ६०; -त्वात् मीसू ६, ६, २७××.  
 ङ्रप्रमु-न्मत्- -मतः आपश्रौ १२,  
 १२, २; वौश्रौ ८, १२ : १६;  
 वैश्रौ १६, १३ : १५; हिश्रौ ९,  
 ३, ४९; -मते वौश्रौ ९, १० :  
 ११.  
 प्र(मु>)भू-वसु<sup>०</sup>- -सुः ऋत्र २,  
 ५, ३५; ९, ३५; सात्र १, ४९०.  
 प्र-भू<sup>०</sup>- -भुवः पाग् २, १७, १५६;  
 -ङ्रम् आपश्रौ ६, १८, २; २०,  
 ५, ९; ११, १; वौश्रौ.  
 प्रमू-न्त्व- -त्वात् काश्रौ ८, ८,

२९; ९, ५, ५; २२, १, ३९.  
 प्र-भूत्, ता- पाग ५, २, ६२; पावान  
 ४, ४, १; -तः माश्रौ ८, १२,  
 १६; या १४, २९; -ङ्रत्मा शंश्रौ  
 ८, २१, ३; आपश्रौ १९, ६, ९;  
 वौश्रौ; -ताः वैश्रौ १३, ७ : २१;  
 -तान् आपश्रौ १५, ५, २०; १९,  
 १, ५; माश्रौ; -तानाम् विघ  
 २३, ३१; -तानि भाश्रौ ११,  
 ५, १५; -तान् वैश्रौ ६, ११ :  
 २; वृदे ७, ६०; -तेन आपश्रौ  
 ५, ५, ९××; वौश्रौ; -तेषु नाश्रौ  
 ६, १, ३, २२.  
 प्रामूतिक- पावा ४, ४, १.  
 प्रभूतक- पा ५, २, ६२.  
 प्रभूतकाम- -मानाम् चात्र  
 ३० : ९.  
 प्रभूत-वल-वर्धन- -नम् अप  
 ७, १, २.  
 ?प्रभूतमृष्टतत्<sup>०</sup>(ः) अप ४४, ३,  
 १०.  
 प्रभूत-यवसे(त-इ)न्धतो(न-उ)  
 दका(क-अ) विच्छिन्न-सांपरा-  
 यिक<sup>०</sup>- -ऋः शंघ २५३.  
 प्रभूत-लम्ब-केश- -शः अप  
 ६९, २, १.  
 प्रभूता(त-अ)र्ध- -र्धम् नाशि १,  
 २, १.  
 प्रभूतै(त-ए)घो(घ-उ)दक- -के  
 आपघ १, १५, २२; हिघ १, ४,  
 ८१.  
 प्रभूतै(त-ए)घो(घ-उ)दक-यव-  
 स-कुश-मालयो(ल्य-उ)पनि-क-  
 मण<sup>०</sup>- -गम् गौघ ९, ६५<sup>१</sup>.

प्रभूतै(त-ए)घो(घ-उ)दक-यव-  
 स-मि-कुश-मालयो(ल्य-उ)पनि-  
 क-मण<sup>०</sup>- -गम् गौघ २, ३,  
 ५१<sup>१</sup>.  
 १प्र-भूति- -इति अप ७०<sup>०</sup>, ११,  
 २४; -त्यै गौग् २, ८, २८<sup>१</sup>.  
 ?प्रभूतगभीतवसति या १४, ३१.  
 २प्र-भूति<sup>१</sup>- -ङ्रतिः आपश्रौ ५, १५, २;  
 वौश्रौ २, १८ : ९; हिश्रौ ६, ५;  
 १५.  
 प्र√भृ(=हृवधा.), ङ्रप्रनरे अत्र  
 १९, ४२<sup>१</sup>; या ९, १०; ङ्रप्र(भरे)  
 आश्रौ ४, १३, ७<sup>२</sup>; शंश्रौ; आपश्रौ  
 ५, ५, ८<sup>१</sup>; वौश्रौ २, १४ : ५<sup>१</sup>; माश्रौ  
 ५, ३, ९<sup>१</sup>; नाश्रौ १, ५, १, १६<sup>१</sup>;  
 वाश्रौ १, ४, १, ६<sup>१</sup>; वैश्रौ १, ५ :  
 १३<sup>१</sup>; हिश्रौ ३, २, ४४<sup>१</sup>; प्रम-  
 रामि वाग् ५, २८<sup>१</sup>; ङ्रप्र(भरा-  
 महे) शंश्रौ १०, ११, ८; सात्र  
 २, ९४६; प्र...भरत्व शंश्रौ १२,  
 १४, ११; ङ्रप्र(भरत्व) शंश्रौ  
 १२, १०, १२; ऋत्र २, ७, ८८;  
 ङ्रप्रनर, > रा वैताश्रौ १६, १; या  
 ६, २०<sup>०</sup>; ङ्रप्र(भर, > रा) शंश्रौ  
 १४, ३, ८; ऋत्र २, ९, १०<sup>३</sup>;  
 ङ्रप्र...भरध्वम् आश्रौ ३, ७, ५;  
 ७, ११, ३४; शंश्रौ; ङ्रप्र(भरध्वम्)  
 आश्रौ २, १६, ११; शंश्रौ;  
 ङ्रप्र...भरत, > ता आश्रौ ३,  
 ३, १; १८, १५××; आपश्रौ;  
 ङ्रप्र(भरत, > ता) आश्रौ २, १६,  
 ७; १७, ३; शंश्रौ; वात्र ४१, १२;  
 (प्र)भरता तैत्र ३, १९; प्रो(प्र-उ)  
 [भरत > ता] शंश्रौ १२, ३, १०;

a) वैप १ द.। b) =साधय-विशेष-। c) नाप. (अभितन्-).। d) =ऋपि-विशेष-। वस.।  
 e) = (उपचारात्) देवता-। f) पाठः?। तमुष्टितः इति संस्कृतुः टि.। g) कस. > दस. > वस. > कन.।  
 h) वस. > दस.। उपनि-कमण- = विहार-स्थल-। i) परस्परं पाभे.। j) नाप. (अभितन्-).। वस.। k) वैप १,  
 २१८७ g द.। l) वैप १, २१८७ i द.।

ऋञ् २, ८, ६२; †प्रभरंम<sup>३</sup>  
आमिग्य ३, ८, २:४३; वौषि १,  
१५:५०; हिपि १५:१८.  
†प्र-भृत- -तम्<sup>३</sup> आपथौ ९, १०,  
१७; वौश्रौ १४, २५: ४; भाश्रौ  
९, १४, ९; वैश्रौ २०, २०: २;  
हिश्रौ १५, ३, २७; -त्स्य या  
११, ४९.  
प्र-भृति- -तयः निसू ९, ९: ४७;  
-ति<sup>०</sup> वौश्रौ १९, ६: ८-१०××;  
माश्रौ; -ति: शांग्य २, ७, २६<sup>३</sup>;  
-तिभिः भाश्रौ ११, २१, ४;  
-तिम् क्षुसू १, ६१३; -ती:<sup>०</sup>  
आपथौ १५, २०, ४; वौश्रौ ९,  
१९: २६; भाग्य ३, ६: १०;  
७: ६.  
प्रभृति- -तयः पावा १, ३, १०;  
५, २, ९४; -ति: अश्र ८, १०;  
१५, १४; -तिभ्यः पा २, ४,  
७२; -तिषु अप<sup>३</sup> १: १३; -तीन्  
अश्रभू ८; -तीनाम् पावा १,  
४, ५२; ७, ४, ८२; -तीनि अप्रा  
३, १, १४.  
प्र-भृथ<sup>३</sup>- -फि ७; -थस्य या ११,  
४९<sup>३</sup>.  
प्रभोजनाद्यरञ्जी सुध २३.  
प्र√अंश, प्रप्र<sup>३</sup>अंशोरन्<sup>३</sup> काश्रौ २३,  
१, १९; आपथौ २२, १३, १९;  
वैश्रौ १७, ५: ४; हिश्रौ १७, ५,  
३८.  
प्र-भंशुक- -का: हिश्रौ २१, २,  
५३<sup>३</sup>.  
प्र-अष्ट- -ष्टै: अप ७०<sup>३</sup>, १४, २.

प्रथष्ट-प्रह-नक्षत्र- -त्रै: अप  
७०<sup>३</sup>, १५, १.  
प्र√आञ् > †प्र-आञ्- -आट् आपथौ  
१६, ३०, १; वैश्रौ १८, २०:  
४१; हिश्रौ ११, ८, ४.  
†प्र-आजमान, ना<sup>३</sup>- -ना: वौश्रौ  
१९, १०: २४; -नाम् अप  
४६, ६, ३; -नानाम् वौश्रौ १९,  
१०: ४१.  
†प्र-आजमानी- -नीनाम् वौश्रौ  
१९, १०: ४२; -न्यः वौश्रौ  
१९, १०: २४.  
प्रमंहिष्ठीय<sup>३</sup>- -यम् शाश्रौ १२, २५,  
४; लाश्रौ ६, ११, ४; क्षुसू २, १५:  
२३; निसू ७, १२: १९; -ये  
निसू ३, १२: १.  
प्रमंहिष्ठीय-वत्- -वन्ति निसू ६,  
४: १.  
प्रमगन्द<sup>३</sup>- -न्दः, -†न्दस्य या ६,  
३२<sup>३</sup>.  
†प्र-मति<sup>३</sup>- -ति: वौश्रौ १७, ४०: २;  
द्राश्रौ ७, २, ७; लाश्रौ; -तिम्  
आश्रौ १, ६, १; ३, ७, १३.  
प्र-मथ्य प्र√मन् द्र.  
प्र√मथ्, न्थ्, प्रमथन्तु वौग्य ३, ७,  
१९<sup>३</sup>.  
प्रमथन्तु आमिग्य २, ५, ३:  
२६<sup>३</sup>.  
प्रममाथ वौश्रौ १८, ४५: ६;  
प्रमथिष्टन अप्राय १, ४.  
प्र-मथ्य वाध १, ३४.  
प्रमथ्य-हरण- -णानि आज्यो ४,  
१२,

प्र-मथ्य- -थ्यः कप्र १, ७, ७.  
प्र-मन्थ<sup>३</sup>- -न्थः कप्र १, ७, ५; १३;  
अप २२, ७, १; -न्थम् वैश्रौ  
१, १: २७; १०, १०: ६.  
प्रमन्था(न्य-अ)प्र- -अम् कप्र १,  
८, २.  
प्र-मन्थन- -नम् वौश्रौ २७, ८: ७.  
प्र-माथम् वौश्रौ १८, २४: १६;  
४५: ५.  
प्र-माथिन्- पा ३, २, १४५.  
प्र√मद्, न्दु, प्रमाद्यते सु २२, १<sup>३</sup>  
प्रमाद्यति वाधुश्रौ ४, ३४: ५;  
प्रमाद्येत् वौश्रौ २४, २३: ७;  
वाधुश्रौ ४, ३४: ४.  
प्रममाद् आपथौ १, ९, ९<sup>३</sup>;  
प्रमदः जैग्य १, २: १७<sup>३</sup>.  
प्रमन्दयते वौश्रौ १२, २०: २;  
प्रमन्दयति वौश्रौ १८, १९: ५;  
प्र-मत्त, त्ता- -त्तः आपथौ ३, १८,  
८; १४, ८, ४; भाश्रौ; -त्तम्  
अप २, ६, २; ३०<sup>३</sup>, २, ७; -त्तस्य  
या ३, २; -त्ता: वौश्रौ ९, १७:  
१४; वैश्रौ ७, ११: ९<sup>३</sup>; हिश्रौ  
२, ६, ७<sup>३</sup>; -त्तानाम् आग्य १,  
६, ७; अप्राय २, ५<sup>३</sup>; -त्ताम्  
वैग्य ३, १: १०; वौघ १, ११,  
९.  
प्रमत्त-रज्जु<sup>३</sup>- -ज्जुम् कौसू ३८,  
२६.  
प्रमत्तो(त्त-उ)क्त- -क्ते गौध १३,  
११.  
प्र-मद्, दा<sup>३</sup>- पा ३, ३, ६८; -दम्  
वाधुश्रौ ४, ३४: ९; -दान् अप

a) पाभे. वैप १, २१८७ k द्र. । b) पाभे. वैप २, ३खं. प्रभृतम् तैत्रा १, ४, ४, १० टि. द्र. । c) वा.  
क्रिवि. । d) पाभे. पृ १६४६ l द्र. । e) = आद्य-यजुस्- । f) वैप १ द्र. । g) विशेषः वैप २, ३खं.  
तैत्रा २, ७, १४, ३ टि. द्र. । h) विप., नाप. (ह्र-द्, सदाणी-). । i) वैप २, ३खं. द्र. । j) परस्परं पाभे. ।  
k) = मन्थन-दण्डः । उप. करणे घञ् प्र. । l) उत्तरेण संधिरार्थः । m) = चाक्रिक-रज्जु- इति केशवः  
३ [LIII] । पूष. अर्थः? । n) उप. भावे कर्तरि च प्र. ।

५३, ३, १; -दे वाधूश्रौ ४, ३४ : ४.

प्र-मदक- -कः या ६, ३२०.

प्र-मदन<sup>a</sup>- -नम् कौसु ७८, ९<sup>b</sup>; -ने मागृ १, ९, २८<sup>c</sup>.

प्र-मन्द<sup>e</sup>-> प्र-मन्दो(न्द-उ)शीर-शल्लव्यु(ली-उ)पधान-शकधूम<sup>f</sup>-माः कौसु ८, १७.

प्र-माद- -दः वृदे १, ५६; -दम् आमिगृ २, ६, ७ : ३९; -दात् आमिगृ २, ६, ५ : ४; ७, ६ : १६; कागृउ; -दे वैगृ २, १५ : ११; आपघ २, २८, ८; हिघ २, ६, ८; -देपु वौध ४, ३, १; ४, १. प्रमाद-तस् (: ) अप ३७, ४, १××; शंघ ३९५; वौध २, २, ६८.

प्रमादा(द-अ)पह्व- -वौ वृदे १, ३८.

प्रमादिक- -कम् कप्र ३, ८, १६.

†प्र✓मन्, प्रमन्महे शुअ ४, ११; प्र(मन्महे) ऋअ २, १, ६२.

प्र-मत्य पावा ६, ४, ३७.

प्र-मर्दन- प्र✓मृद् द.

प्र✓मा(माने)<sup>g</sup>, प्रमिमीत हिश्रौ ३, ३, १३†.

प्र-मा<sup>h</sup>- -मया आपश्रौ ४, ५, ४, ९, १३, ६; भाश्रौ; -मा आपश्रौ १५, ८, २××; वौश्रौ; ऋश्रा १७, १९.

प्र-माण<sup>i</sup>- -णम् आपश्रौ २४, १, ३०; वौश्रौ २, ३ : ७; वौश्रौप्र ५४ : ८; भाश्रौ; काश्रु १, १२†.

२, १४†; आश्रु ३, ७†; हिश्रु १, ४६†; -णात् काश्रु १, २३; वौश्रु १ : १७; २८; मैअ ३०; -णानि वौश्रौ २७, ४ : २८; भाश्रौ ७, २, ६; अप २३, ६, ४; ४६, १, ८; -णे वौश्रौ २०, १६:१२; काश्रु १, २४; पा ३, ४, ५१<sup>k</sup>; ४, १, २४××; पावा ५, २, ३७; -णेन वौश्रौ २७, ४ : ३०; भाश्रौ; -णेपु काश्रौ १८, १, ५××.

प्रामाप्य- -ण्यम् या १४, ६.

प्रमाण-तस् (: ) कप्र ३, ८, १२; अप २३, २, ३××.

प्रमाण-परिमाण- -णाभ्याम् पावा ५, २, ३७.

प्रमाण-मा(त्र >)त्री<sup>l</sup>- -त्रीम् आपश्रु १, ११; हिश्रु १, २१.

प्रमाण-वर्जित- -ते वैगृ ६, १ : ७.

प्रमाण-विभाग- -गः काश्रु २, १६.

प्रमाणा(ण-अ)र्थ- -र्थम् लाश्रौ ६, १, ११.

प्रमाणा(ण-अ)र्द्ध- -र्द्धम् काश्रु १, १४; -र्द्धे काश्रु १, १६.

प्रमाणित- -तम् अप ३ : ३.

प्र-माय शंश्रौ १७, १०, ४; वौश्रौ; कौगृ १, ४, १<sup>m</sup>.

प्र-मित- -तम् काश्रौ २२, ८, १६.

प्र-मेय- -यम् काश्रु ७, १९; वेज्यो २४.

प्र-मातामह<sup>n</sup>- -हाय शंघ ११६:७३.

प्रमातामही- -ह्यै शंघ ११६ : ७४.

प्र-माथम्, पथिन्- प्र✓मथ् द.

प्र-मापण- , माप्य, मायुक- प्र✓मि, मी द.

प्र-मार- प्र✓मृ, मृ द.

प्र-मार्जन- , मार्ज्य प्र✓मृज् द.

प्र✓मि(प्रक्षेपणे) > प्र-मित्- -मितः मागृ १, २७ : ११†.

प्र✓मि, मी, प्रमीयते वौश्रौ १४, ६ : ११; १८××; वाधूश्रौ; प्रमी-यन्ते वौश्रौ १३, ४ : ७; आमिगृ २, ५, ९ : १२; जैगृ २, ६ : ९; वृदे ४, १२०; प्रमीयाते आपर्म् १, ८, ५; प्रमीयेत आश्रौ ३, १०, १०; १८; शंश्रौ; प्र...मीयेत भाश्रौ ११, १८, ११; प्रमीयेत् आपश्रौ ९, ३, १७; वौश्रौ.

प्रा(<प्र)...मिनोति<sup>o</sup> आपश्रौ १४, २९, ३; हिश्रौ १५, ७, १६.

प्रमिनाति, प्रमिनन्ति अश्रा ३, १, ७†; प्र(मिनन्ति) आश्रौ ८, ९, २†; †प्रमिनाम आश्रौ ३, १३, १२; आपश्रौ १४, २८, ४××; वौश्रौ.

प्रमिनीत् अश्रा ३, १, ७†.

प्र(मिमय) शंशि १८४†.

†प्रमायि वौश्रौ ३, ६:१४; कागृ २८, ४; प्रमेप्माहि आपश्रौ ६, २१, १†.

प्रामापयत् या ५, ९; प्रामापयेत् दाघ २०, ४१.

प्र-मापण- -णे शंघ ४०९; विघ

a) उप. भावादौ प्र. ।

b) = फलमोदकादि- इति केशवः ।

c) = कर्म-विशेष- (तु. पाभे.) ।

प्रमोदस्थान- इति भाष्यम् MW. च ।

d) सप्र. प्रमदने <> प्रवदने इति पाभे. ।

e) = श्रोपवि-विशेष- ।

f) द्रस. । शल्ली- = धावित्-शलाका-, उपधान- = उपानह्, शकधूम- = ब्राह्मण- इति दारिलः । g) या १०, २१ परामृष्टः द्र. । h) भाप., नाप. (छन्दो-विशेष-). ।

i) = प्रमाण-रज्जु- ।

j) = प्रकनादि- ।

k) = आगाम- ।

l) पूष. = आगाम- ।

m) सपा. शंश्रु १, ८, १४ मापयित्वा इति पाभे. ।

n) प्रास. ।

o) पाभे. वैप १, २१९० ० द्र. ।

५०,४६.

प्र-माप्य शंघ ३८२; ४०९.

प्र-मायुक- -कः आपथ्रौ २, १४, २; १२, १३, १०××; वौथ्रौ; या ३, ५१; -काः वौथ्रौ १४, ९ : २; ३; आगृ २, ७, ११; -कान् गोगृ ४, ७, २१.

प्र-मिये<sup>a</sup> आथ्रौ ४, ११, ६; शांथ्रौ ९, २६, ३; १६, १, २१.

प्र-मीत- -तः आपथ्रौ ९, ११, २२; हिथ्रौ १५, ३, ३७; हिपि २३ : १८; -तम् आपथ्रौ ९, ११, १७; वैथ्रौ; -तयोः वौपि २, ४, ७; -तस्य आथ्रौ ३, १०, १७; आपथ्रौ; -ताः हिपि २० : ८; -तानाम् आमिगृ ३, ७, ४ : ५; वौपि; -ते भागृ ३, १ : ४; हिपि २३ : १०.

प्रमीता(त-अ)हन्- -हनि कप्र ३, ५, ७.

प्र√मिह्>प्र-मेह<sup>b</sup>->प्रमेहिन्-  
-ही शंघ ३७८.

प्र-मेहण<sup>c</sup>- -गम् कौसू २५, १०.

प्रमीप- (>प्रमीपिन्-) प्रतीप-  
टि. द्र.

प्र-मुख<sup>d</sup>- -त्वाः अप्राय ६, ७.

प्रमुख-तस् (ः) वैगृ ५, १५ : २.

प्र√मुच्,ञ्च्, प्रप्रमुक्तु आपथ्रौ ७, १७, ५; वौथ्रौ ४, ६ : ३९××; माथ्रौ; प्रप्रमुग्वि वौथ्रौ ८, १९ : १६; आनमं १, ४, १४; आमिगृ १, ५, ४ : ९; अप्राय ४, १. प्रमुञ्चति आथ्रौ ९, ३, १२; काथ्रौ; प्र...मुञ्चामि<sup>e</sup> आथ्रौ १, ११,

३××; शांथ्रौ; प्र...मुञ्चति आपमं १, ४, ५; ५, ७; वौगृ १, ४, १८; प्र...मुञ्चातु आगृ १, ७, १३; कौगृ १, ११, ४; शांथ्रौ १, १८, ३; कागृ; प्रमुञ्चतु आथ्रौ २, ७, ११; शांथ्रौ; प्र...मुञ्चन्तु आपमं १, ७, ९; वौगृ १, ५, ५; ४, २, १२; अप ४२, २, ३; प्रमुञ्च>ञ्चा अप २०, ७, ८; तैप्रा ३, ८; प्र...मुञ्चतम् ऋप्रा ५, ५९; प्रामुञ्चत् शांथ्रौ १४, ७, १.

प्रमुमुचतुः या ५, २१; प्रमोचिरे वृदे ६, १५.

प्रमुच्यते सु ३१, ६; कप्र २, १०, ८; अग; प्रमुच्येते वौघ ४, ६, ६; प्रमुच्यन्ते वाघ २५, ३; प्रमुच्येत याशि १, ३२; प्रमुच्येय>या सु ११, ५.

प्रमोचयेत् कप्र २, ८, २२.

प्र-मुक्त- -क्तः आपघ १, ९, १३; हिघ १, ५, ११७; -क्तयोः वैताथ्रौ ९, २१.

प्रमुक्त-त्व- -त्वात् कौसू १, ८.

प्र-मुक्ति<sup>h</sup>- -क्तीः आपथ्रौ २०, १२, ४.

प्र-मुच्य काथ्रौ १६, ३, १४; काठथ्रौ.

प्र-मुच्यमान- -न्तः वैताथ्रौ १०, १७; -न्तम् वौथ्रौ ४, ६ : ३८; वैताथ्रौ १०, १६; -नान् वौथ्रौ ११, ४ : २२; १५, २९ : १८; -ने आपथ्रौ ७, १५, ६; -नेपु वाथ्रौ १, ६, ५, ७.

प्रमुच्यमान-होम- -मान् वैताथ्रौ

१०, १७.

प्र-मुञ्चमान- -नाः<sup>f</sup> आपथ्रौ ७, १५, ६; वौथ्रौ ४, ६ : २५; माथ्रौ १, ८, ३, ३.

प्र-मोचयत्- -यन् विघ ५, १९५.

प्र-मोचि(न्>)नी- -नी शंघ ४५४.

प्र√मुद्, प्रमोदते अप १, ४९, ८.

प्र-मुदित- -तः प्रवाथ्रौ ३, २, ७, ४५; ८, ३; सु १४, १; अप २४, ३, ३.

प्र-मोद<sup>g</sup>- -द्ः आमिगृ १, ५, १ : ९; अप २०, ७, ८; ६८, ५, १३; -दाय हिपि १२ : ३१.

प्र-मोदिन्- -दिनाम् अप ३१, १०, ५.

प्र√मुप्, प्रमोषीः वौथ्रौ १७, ४० : ९; वाथ्रौ २, २, ५, ७; आपमं.

प्र√मू (गतौ), प्रमूसूत अप १, ४१, ४; प्रमूसोत<sup>i</sup> अशां ११, ४.

प्र√मृ, मृ, प्रमृणीहि आमिगृ १, १, २ : २४; ५, ३ : १७; कागृ.

प्र-मर- -रेण अघ ११, ८.

प्र-मृग- पाग २, १, १७.

प्र-मृचु<sup>k</sup>- -चुः अप ५२, ९, ५.

प्र√मृज्, प्रमाष्टि काथ्रौ १७, ३, १३; आपथ्रौ; प्रमृजीत पागृ २, ७, १६; प्रमृज्यात् वाघ ११, २२; विघ ६२, ७.

प्रमाक्ष्यते पागृ २, ६, १७<sup>l</sup>.

प्र-मार्जन- -न्तम् सुघप ८७ : १२.

प्र-मार्ज्य वैगृ ४, ४ : ७; ५, ३ : ८; शंघ ४३९.

प्र-मृज्य काथ्रौ ९, ४, ३८; आपथ्रौ २, ११, १; १५, १०, ६; माथ्रौ.

प्र-मृष्ट- -ष्टम् काथ्रौ ७, ५, १५.

a) वैप १ द्र.। b) =रोग-विशेष-। c) नाप. (लेहन-साधन-] ओपधि-).। d) प्रास.। e) पामे.

वैप १, २१९१ C द्र.। f) पामे. वैप १, २१९१ h द्र.। g) पामे. वैप १, १८९४ B द्र.। h) =आहुति-विशेष-। i) पामे. वैप १, २१९१ O द्र.। j) पाठः? प्रमूसूत इति शोधः (तु. अप.; संस्कर्तुः टि. प्रमूसोच इति शोधः?)। k) व्यय.। व्यु. ?। l) सपा. आपमं २, ७, १९ प्रवेक्ष्यति इति पामे.।

प्र/सृण् > प्र-सृ(ण >) णा-  
 -णाभिः वौश्रौ २८, १ : १२<sup>क</sup>.  
 प्र/सृद् > प्र-सृद्व- -ने अण ४०,  
 २, ८.  
 प्र-सृदित- -तेषु वौश्रौ २६, ३२ : १.  
 प्र/सृग् > प्र-सृशत्- -शतः आपर्मा  
 २, १३, १२; आमिण्य २, १, ३ :  
 २०; भाग्य १, २३ : १३; हिण्य २,  
 ३, ७.  
 प्र/सृप्, प्रसृत्यते या ४, १४.  
 प्र-सृषे<sup>०</sup> माश्रौ ३, ८, १; अप्राय  
 ६, २; या ४, १४<sup>क</sup>.  
 प्र-सृष्ट- प्र/सृष्ट् द्र.  
 प्र-मेय- प्र/मा द्र.  
 प्र-मेह-, °हण-, °हिन्- प्र/मिह् द्र.  
 प्र-मोचयत्- प्रसृ. प्र/सुच् द्र.  
 प्र-मोद्- प्रसृ. प्र/सुद् द्र.  
 प्र/सृष्टै > प्र-सृष्टाय वैश्रौ १२, ७ : ४;  
 १६, २२ : १.  
 प्र-यत्<sup>०</sup> > प्रयक्ष-तम- प्र/सृम्  
 आश्रौ ४, ७, ४; शाश्रौ ५, १०, ८.  
 प्र/यच्छ्, यम्, प्रयच्छते सु १८,  
 १; प्रयच्छति आश्रौ १, १०, २;  
 ५, १२, ६; शाश्रौ; पा, पावा ४,  
 ४, ३०; प्र/सृ...यच्छति वौश्रौ  
 १०, ५ : १४; तैप्रा ७, १६;  
 प्रयच्छतः काश्रौ १४, ४, १५;  
 वौश्रौ ६, ७ : १४; प्रयच्छन्ति  
 काश्रौ २६, ६, २४; वौश्रौ;  
 प्र/सृ...यच्छन्ति भाश्रौ ६, ४,  
 ४<sup>०</sup>; अप्रा १, १, १४; प्रयच्छामि  
 आश्रौ ३, १, १६; शाश्रौ ५, १५,  
 ८; काश्रौ; आपश्रौ २२, २६, २<sup>०</sup>;

वौश्रौ १८<sup>०</sup>, ९, ४; ११; १८; २५;  
 हिश्रौ २३, ४, १८<sup>०</sup>; कौसू ५६,  
 २; ५७, ४; प्र/सृ...यच्छामि  
 कौश्रौ १, १६, ७<sup>०</sup>; शाश्रौ १, २४,  
 ४<sup>०</sup>; प्रयच्छत् भाग्य १, १३ :  
 ५<sup>०</sup>; प्र/सृयच्छत् शाश्रौ ४, १८,  
 २; शाश्रौ २, १०; ४; वाग्य;  
 प्र(यच्छत्) शुश्र १, ५८३<sup>०</sup>; प्र/सृ...  
 यच्छन्तु हिश्रौ ६, ६, १६<sup>०</sup>; प्रय-  
 च्छस्व अपृष्ट, ३, ३; प्र/सृयच्छ वौश्रौ  
 ६, ३१ : २०; जैश्र १, १२ : २१;  
 कौसू १, २४××; प्र/सृ...यच्छ हिश्रौ  
 २, ८, ४२<sup>०</sup>; प्रयच्छतात् वौश्रौ  
 १२, १२ : १६; प्र/सृयच्छत वौश्रौ  
 ६, २१ : २३; २२ : ४××; विध  
 २०, ३३; ३४; प्र/सृ...यच्छत वौश्रौ  
 ६, ३० : १; प्रायच्छत् शाश्रौ १४,  
 ५०-५१, १; वौश्रौ १४, १६ :  
 १०<sup>०</sup>××; भाश्रौ; या १२, ८<sup>०</sup>;  
 प्रायच्छताम् वाधूश्रौ ४, १९; ४४;  
 प्रायच्छन् वाधूश्रौ ३, २१ : ६; अपृ  
 १<sup>०</sup>, १, १; या १३, १२; प्रयच्छेत्  
 आश्रौ २, ४, १६××; शाश्रौ.  
 प्र/सृयच्छि आश्रौ १, १५, ३; पाग्य  
 १, १८, ४; या ६, ७.  
 प्र-यच्छत्- -च्छन् काश्रौ ६, ४, ११;  
 ७, ८, २०××; आपश्रौ.  
 प्र-यत्, ता- -तः आमिण्य २, ४, ११ :  
 ४; कप्र १, ८, ३; अपृ- -प्र/सृ...  
 आश्रौ २, १४, ३१; शाश्रौ १,  
 १७, १९; आपश्रौ ३, ११, २६;  
 भाश्रौ; -ता भाग्य ३, १२ : ९;  
 -ताः वैश्रौ २०, २३ : ४; हिण्य;

-ताम् वैश्र ६७ : १२; -ताभिः  
 हिण्य १७ : १६<sup>०</sup>; -ताम् वौश्रौ  
 १३, ३२ : ८<sup>०</sup>; -तैः अपृ ७०<sup>०</sup>,  
 ३, ५.  
 प्रायत्य<sup>०</sup>- -त्यम् वाध ३,  
 ५६; वौध १, ५, ५८.  
 प्रायत्य-ब्रह्मचर्य-काल-  
 चर्या<sup>०</sup>- -र्यया आपध १, ३१,  
 १९<sup>०</sup>; हिण्य १, ८, ३८.  
 प्रयत्-पाणि<sup>०</sup>- -णिः सु १९, ६;  
 वौश्र २, २, १०<sup>०</sup>.  
 प्रयत्-वल्, खा<sup>०</sup>- -खः भाग्य २,  
 ३२ : ३; हिण्य १, १४, २; १७,  
 ६; -त्राम् आमिण्य २, १, १ :  
 ७; २; ८; भाग्य १, २० : १०; हिण्य.  
 प्रयत्(त-त्र)ञ्जलि<sup>०</sup>- -लिः वौध  
 २, १, ३४; ४, २, ११.  
 प्रयत्(त-त्र)स्मन्<sup>०</sup>- -स्मनाम्  
 वाध २६, १४; -त्सा अपृ ६८,  
 ३, ७.  
 प्र/सृयति<sup>०</sup>- -तिः काश्रौ १९, ५,  
 १०; आपश्रौ १९, १०, २; वाश्रौ;  
 -ती या ६, १६<sup>०</sup>.  
 प्र-यन्त्- -न्तः ऋप्रा १, १०२<sup>०</sup>.  
 प्र-यमण<sup>०</sup>- -णम् आमिण्य २, ६, २ :  
 १४; आपध १, १५, १०; २२;  
 वौध २, ५, ८; हिण्य १, ४, ६९, ८१  
 प्र/यज्, प्रयजति वैश्रौ १६, १६ :  
 ६; प्र/सृ...यज शाश्रौ १, ६, २;  
 आपश्रौ ३, २०, ८; वौश्रौ.  
 प्र/सृ...यजि आपश्रौ ३, २०,  
 १०<sup>०</sup>; वौश्रौ १३, ३५ : ४;  
 भाश्रौ ३, १८, ११<sup>०</sup>; प्र(यजि)

a) प्रसृ इति पाठः? यनि. शोधः (तु. खि ३, १०, ५) । b) वैप १ द्र. । c) पाभे. वैप १, २१९४ a द्र. । d) पाभे. वैप १, १८१२ e द्र. । e) पाभे. पृ १६७० e द्र. । f) पाभे. पृ १७०६ e द्र. । g) पाभे. वैप १, २१९८० द्र. । h) भावे प्यज् प्र. । i) द्रस. > मलो. कस. । j) लै इति पाठः? यनि. शोधः । k) दस. । l) भाप. [शौच- (तु. वौध. भाष्यम्; वैतु. आपध. भाष्यम् = आचमन- [करणे कृदिति]) । m) पाभे. वैप १, २१३६ c द्र. ।



ऋअ २, १०, ४१; ऋप्र(इयक्षसि)  
आपश्रौ ३, ८, १; शांश्रौ ९, २३,  
११; वौश्रौ.

प्र-यजन- पाग ८, १, २७; ६९.

प्र-याज<sup>१</sup>- -जः शांश्रौ १५, १, २६;  
आपश्रौ २१, २, ६; २४, ११, १६;  
वौश्रौ; -जम् शांश्रौ ५, १८, ४;  
वैश्रौ; -जाः आश्रौ २, १६, ९××;  
शांश्रौ; या ८, २२<sup>०</sup>१; -जात्  
वौश्रौ ३, १५ : २६; वाश्रौ १,  
७, ५, १४; वैश्रौ ५, ४ : १;  
-जान् शांश्रौ १, ६, १६××;  
काश्रौ; या ८, २२<sup>०</sup>१; -जानाम्  
आपश्रौ ४, ७, ११××; वौश्रौ;  
-जाय भाश्रौ ७, १५, ११; -जे  
आश्रौ २, १९, ९; शांश्रौ; -जेऽ-जे  
आपश्रौ १९, २१, १०; वौश्रौ  
१३, २४ : ५; ६; माश्रौ; -जेन  
आपश्रौ ५, २८, ८; माश्रौ;  
-जेभ्यः आश्रौ १, १२, ३४;  
काश्रौ; -जेषु शांश्रौ २, ५,  
१०××; काश्रौ; -जैः आश्रौ १,  
५, १; आपश्रौ.

प्रायाजिक<sup>२</sup>- -कस्य वाश्रौ ३,  
१, २, २९.

प्रयाज-प्रतिषेध- -धे मीस् ९,  
४, ५४.

प्रयाज-प्रभृति- -त्ति आपश्रौ १३,  
२४, १०; माश्रौ ५, १, ३, २२.

प्रयाज-प्रैष- -पाः काश्रौ १९, ६,  
१४; वाश्रौ ३, २, ८, ९; शुश्र ३,  
१०२; १०६.

प्रयाज-याज्या- -ज्याः शांश्रौ  
१, ७, ६; ५, १६, ५.

प्रयाज-वत् काश्रौ ५, ९, २२;  
आपश्रौ १०, २१, १०; मीस्.

प्रयाज-शेष- -षेण वैश्रौ ६, ७ :  
६; १०, १६ : ६; हिश्रौ २, २,  
३२; ४, ४, ३५.

प्रयाजा(ज-आ)दि- -दिः शांश्रौ  
८, ११, १०.

प्रयाजादि-वपान्त- -न्ते  
वैश्रौ १४, १७ : १२.

प्रयाजाद्य (दि-अ) नुयाजा  
(न्त>)न्ता- -न्ता आश्रौ ६,  
१३, ४.

प्रयाजा(ज-अ)नुमन्त्रण- -णम्  
काश्रौ ३, ३, २.

प्रयाजा(ज-अ)नुयाज- -जाः  
वृदे ८, १०३; या ८, २१; -जान्  
आश्रौ २, ८, ५; शांश्रौ; -जानाम्  
चाश्र ४१ : २१; -जेषु माश्रौ  
१, ६, ५, ९; २, ५, ५, २५; वाश्रौ  
१, १, ५, १४; -जौ आश्रौ २,  
१९, १२; पा ७, ३, ६२.

प्रयाजानुयाज-प्रैष- -पाः  
काश्रौ १९, ६, १०.

प्रयाजानुयाज-विवृद्धि- -द्धौ  
माश्रौ १, ४, १, २८.

प्रयाजा(ज-अ)नूयाज- -जाः  
आपश्रौ ८, ६, १८; २०, ६; वौश्रौ;  
-जानाम् वौश्रौ २७, २ : ११;  
-जेषु भाश्रौ ३, १५, ४; वैश्रौ;  
-जौ भाश्रौ ८, १२, ६.

प्रयाजा(ज-अ)भाव- -वात् काय  
१३, १०.

ऋप्र-यज्यु<sup>३</sup>- -ज्यवः आश्रौ ७, ७, ८;  
शांश्रौ १०, ८, १५; १८, २३, ३;

ऋअ २, ५, ५५.

प्र<sup>४</sup>यत्, प्रयतेत् लाश्रौ ८, ८, १;  
प्रयतेरन् आश्रौ ४, १२, ३.

प्र-यतन- -नम् आशि ७, ५.

प्र-यत्<sup>५</sup>- -लः कौशि २९; आशि-

१, ३××; -लम् ऋप्रा १४, ३५;

-लात् आमिष्ट २, ७, ६ : १;

विध ८१, १०××; -लेन वौश्रौ

२७, ११ : १४; वैष्ट ५, १५; १९;

कप्र.

प्रयत्न-तत्स (ः) आमिष्ट २, ६, ७ :

१३; ७, ६ : १५; कप्र.

प्रयत्न-निष्पत्ति- -त्तेः मीस् १,

३, २५.

प्रयत्न-प्रेरित- -तः आशि ८, १.

प्रयत्न-विशेष- -पात् तैप्रा १७, ७.

प्रयत्न-लामान्य- -न्यात् पावा १,

१, ९.

प्रयत्ना(ल-अ)नुप्रदान-तत्स (ः)

पाशि १०.

प्रयत्नो(ल-उ)त्सर्ग- -र्गे वाध

२३, ४.

प्र-यत्- प्रे(प्र<sup>४</sup>/इ) द्र.

प्र-यत्- प्रष्ट. प्र<sup>४</sup>यच्छ द्र.

प्रियताभिरक्ता<sup>६</sup> हिपि १७ : १६१.

प्र<sup>४</sup>यस्<sup>७</sup>>प्र-यप्स्यत्- -प्स्यन् आश्रौ

२, १०, १४.

प्र<sup>४</sup>यस्, प्र-यमण- प्र<sup>४</sup>यच्छ द्र.

प्र<sup>४</sup>यस्<sup>७</sup>>प्र-यस्य(त्>)न्ती-

-न्ती अश्र १२, ५(४)१.

ऋप्र-यास- -साय<sup>८</sup> वौश्रौ १५, २ :

१५; ३५ : ५××; आमिष्ट.

ऋप्रयस्<sup>९</sup>- -यः आपश्रौ १६, ६, ७;

वाश्रौ २, १, ५, २०; हिश्रौ ११,

a) वैष १ द्र. । b) तस्येदमीयप् ठक् प्र. । c) भाप., नाप. । d) पाठः (तु. तैप्रा ६, ५, १.

प्र...क्ता)? प्रयता(त-अ)भिरक्त- > -क्ता (विप. [यम-], पस.) इति शोधः (वैतु. भा [तैप्रा.] प्रयताभिः, अक्त्-  
[भक्तान् प्रति] गन्त्- ) > -क्ता इति, सा. भक्ता- > -क्ता (विप. [यमी]) इति तत्र विशेषः । e) पाप्मे. वैष १, २१९४

a द्र. । f) वैष १, २१९७ b द्र. ।

१,७३; -यांसि आश्रौ ७,८,१.  
 ऋप्रयस्-वत्- वन्तः ऋअ २, ५,  
 २०; -वान् आश्रौ ३,१२,९××;  
 शांश्रौ ५,१०,१८; या २,१३.  
 प्र√या, प्रयाति आपश्रौ ९, १, ९;  
 १०,१९,६××; वौश्रौ; प्र(याति)  
 ऋअ २,१०,८; वृदे ६,१४७; सात्र १, ७१; प्रयान्ति आपश्रौ  
 ७,२८,४; वौश्रौ १७,४० : ११;  
 वैश्रौ; ऋप्र...यासि आश्रौ २,  
 २०, ४××; शांश्रौ; लाश्रौ ५,  
 २, १०<sup>३</sup>; प्र(यासि) शुअ ३,  
 ८४; प्रयात् विध ६३, ३३;  
 ऋप्रयात् आश्रौ ८,११,४; शांश्रौ  
 २,५,३; प्रयाहि आश्रौ ६, ११,  
 ९; ऋप्र...याहि आपश्रौ १६,  
 १२,६; वौश्रौ; ऋप्र(याहि) काश्रौ  
 १६, ६, १८; वाश्रौ; प्रयायात्  
 आपश्रौ ५, ३, २३; ७, ९××;  
 वौश्रौ; ऋप्रयायाः द्राश्रौ १०,  
 २, १३; लाश्रौ ३, १०, १४;  
 प्रयायाम् वौश्रौ १८, ४८ : १३.  
 प्रययौ विध १, ३३; प्रययुः  
 वौश्रौ १८, २६ : १०; आम्निष्ट  
 ३, ८, १ : २२; २३; वौषि १,  
 १४ : २०; २१; १५ : १; प्रया-  
 स्यति हिश्रौ १३, ६, ४; ऋप्र-  
 (अयासीत्) क्षुस् ३, १० : ३६;  
 ऋअ २, ९, ९०; सात्र १, ५३६;  
 ऋप्रो(प्र-उ [अयासीत्]) जैश्रौका  
 ४०; सात्र १, ५५७.  
 प्रयापयति वाश्रौ २, १, ३, २९.  
 प्रयियासेत् भाष्ट ३, ३ : १२.

प्र-याण<sup>१</sup>- णः आपश्रौ १०, १९, ८;  
 -ऋणम् आपश्रौ २१, २, ९<sup>०</sup>; या  
 १२, १३; शुप्रा ६, ८; तैप्रा ७, ६;  
 १२, ४; -णस्य वौश्रौ ६, ९ : १;  
 १०, १७ : १; -णे आपश्रौ २४,  
 १, ४१; वौश्रौ.  
 प्रयाण-काल- -ले वैष्ट ५, १ : ९;  
 १६.  
 प्रयाण-यजुस्- -जुः वौश्रौ २१,  
 १० : १०; २२, ८ : २६.  
 प्रयाणो(ण-उ)पपत्ति- -त्तौ  
 आश्रौ ३, १०, ३.  
 प्र-यात्- -याति हिश्रौ ३, २, ५९;  
 -यान्तः हिश्रौ ९, ५, १६;  
 -यान्तम् वौश्रौ ४, १ : २२;  
 वैश्रौ १२, १४ : १०<sup>४</sup>.  
 प्र-यात्- -तः अष्ट १, ३१, ६; ६७,  
 ६, ३; -तम् हिश्रौ ७, १, ६५<sup>१</sup>;  
 हिपि १८ : २५; -तस्य सु १,  
 ४; आज्यो ३, १; -ताः अष्ट  
 ७०<sup>३</sup>, ९, ४; -ते वौश्रौ १४,  
 १९ : २०; -तेषु वृदे ५, ७२.  
 प्र-याप्य वाष्ट १५, ४.  
 प्र-याय माश्रौ १, ६, ३, ४; द्राष्ट ३,  
 १, २९.  
 प्र-यायिन्- पाठभो २, १, २९०;  
 -यो अष्ट ५१, ४, २.  
 प्र-यास्यत्- -स्यन् आपश्रौ ६, २८,  
 १; ५××; वौश्रौ.  
 प्र-यै पा ३, ४, १०.  
 प्रयाग<sup>२</sup>- -गम् शंघ ११६ : १३; -गे  
 शंघ १९४; विध ८५, २८.  
 प्र-न्याज- प्रम्. प्र√यज् द्र.

प्र√यु, प्रयौति आपश्रौ २, ८, ५; ७,  
 २५, ४; ५; वौश्रौ ४, ९ : १७<sup>३</sup>;  
 माश्रौ ७, १४, १२; १९, १३;  
 २०, १<sup>१</sup>; वाश्रौ; या ४, १९;  
 प्रयौयात्<sup>३</sup> वौश्रौ २५, ३२ :  
 १२; २२; २८.  
 ऋप्र...युयोतन<sup>४</sup> आपमं २, ३,  
 १; हिष्ट १, ५, १; जैष्ट १, १२ :  
 २६.  
 ऋप्र-युत्- -युतः आपश्रौ १२, ३,  
 २; हिश्रौ ८, १, ४१; जैश्रौ ९०, ८.  
 ऋप्र-युत्, ता- पाग ६, २, १४<sup>१</sup>;  
 -ऋतम्<sup>१</sup> काश्रौ ६, ८, ११; शुअ १,  
 ४०४; -ऋता<sup>१</sup> आपश्रौ ७, २०,  
 ४; माश्रौ; -ताः वैताश्रौ ३८,  
 ५; -तान् माश्रौ २, ३, ७, ८.  
 २प्र-युत्<sup>२</sup>- पाग २, ४, ३१<sup>१</sup>; -तम्  
 क्षुस् २, ९ : १७; अष्ट ४८, ६६<sup>१</sup>;  
 या ३, १०; -तात् वाश्रौ ३, ४,  
 २, १०; -तानि शांश्रौ १४, ८२.  
 २; वौश्रौप्र ५४ : १०; -ताय  
 वाश्रौ ३, ४, २, ११<sup>१</sup>; -ते शांश्रौ  
 १५, ११, ४; आपश्रौ १६, ३१,  
 १<sup>१</sup>; वौश्रौ.  
 ऋप्र-युत्ति- -ती<sup>३</sup> आश्रौ ३, १३, १८;  
 माश्रौ २, ५, ४, ९; वैताश्रौ २३,  
 १२.  
 प्र-युत्य वाश्रौ २, २, ४, ९.  
 प्र-युन्वत्- -न्वद्भ्यः, -०न्वन्तः  
 हिष्ट २, ९, २<sup>१</sup>.  
 प्र-युव(त् >)ती- -ती या ९, २६;  
 -तीम् या १०, २९.  
 प्र-यूय वौषि १, ३ : १५; २२; ३०.

a) पामे. वैप १, २१९७ f द्र. । b) भाप., नाप. (मन्त्र-) । c) सपा. हिश्रौ १६, १, ३३  
 प्रायणम् इति पामे. । d) सपा. प्रयान्तम् <> प्रयातम् इति पामे. । e) = तीर्थ-विशेष- । व्यु. ? । वस. इति  
 शक. । f) सपा. प्रयौति <> प्रयौयात् इति पामे. । g) = प्रयुयात् । h) पामे. वैप २, ३२. प्र...युयोतन  
 मंत्रा १, ६, १४ टि. द्र. । i) प्र-युक्त- इति पाका. । j) पामे. वैप १, २१९८ l द्र. । k) वैप १ द्र. । l) वृ-  
 पागम. । m) पामे. वैप १, २१९८ o द्र. । n) पामे. पृ १७१३ l द्र. ।

प्रयुच्, प्रयुच्सि आश्रौ ७, ४, ४; आपश्रौ ६, १८, १××; वौश्रौ.

प्रयुज्, प्रयुक्त् आश्रौ २, ३, ३; वौश्रौ १३, १०:३; वाधूश्रौ; या ७, १; प्रयुनक्ति आपश्रौ १, ७, ५; ११, ४××; काठश्रौ; हिश्रौ १३, १, १३<sup>२</sup>†; प्रयुक्त्: भाश्रौ ८, ५, ५; वैश्रौ ८, १०:२; हिश्रौ ५, २, २०; प्रयुजते ब्राधूश्रौ ३, ८३: १; कौश्रु; प्रयुनक् वौश्रौ २, ९: १३; प्रयुजित काश्रौ २२, ११, ३१; आपश्रौ १४, १४, १२; वौश्रौ; प्रयुञ्ज्यात् जैरु २, ८: १६; कप्र ३, ६, ५; अश्रु; प्रयुञ्ज्यु: अप ३०, २, २; प्रयुञ्जीमहि वौश्रौ २, ८, ११†.

†प्र(युज्जे) ऋश्र २, १०, ३३; वृदे ७, ३४.

प्रयुज्यते आपश्रौ ९, १७, ५; हिश्रौ १५, ७, २५; लाश्रौ; प्रयुज्येते निस् २, ५: ३४; प्रयुञ्जन्ते शाश्रौ १५, ११, ५; आपश्रौ; †प्र(युज्यन्ते) तैप्रा ७, ६६; माशि १०८; †प्रयुज्यताम् आश्रौ १, १, ४; १४, ३; वौश्रौ; प्रयुज्येत निस् १, ११: ३; मैश्र ५; प्रयुज्येरन् आपश्रौ १४, १५, ३; हिश्रौ १०, ७, २५××; निस्. प्रयोजयेत् आपश्रौ ७, १२, ३; वौश्रौ २, २: १७; अप.

प्रयुक्त, क्त- पा ६, २, १४७०; -क्त: वृदे २, ६९; आशि १, २; -क्तम् हिश्रौ २१, २, ४५; निस् २, ५: २०; अप्राय; -क्ता अप ३२, १, १२; ४१, २, १३; -क्ता: अप ३७, १,

६; -क्तानाम् आपश्रौ ९, १३, १३; २०, १०, ८; माश्रौ; -क्तानि निस् १०, ३: ३८; अप १, २२, ३; शंघ ४१७†; या १२, ३०; आज्यो ४, १३; मीसू १, ३, ७; -क्तायाम् अप ७०, १, ९; -क्ते वाश्रौ ३, २, १, २७; वैश्रौ १४, ५: ६; -क्तै: अप ७, १, १.

प्रयुक्त-तम- -सानि निस् १०, ३: २२.

प्रयुक्त-त्वं- -त्वात् मीसू ३, ७, ३९; ६, ६, ३१××.

प्रयुक्त-पूर्व- -त्रै आपश्रौ ११, ६, ३; हिश्रौ ७, ५, १.

प्रयुक्त-प्रतिषेध- -ध: निस् ५, ३: ४.

प्रयुज्<sup>६</sup>- -युक् वाधूश्रौ ४, २९: ४; -युज: वाश्रौ ३, ३, ४, ३५;

-†युजर्<sup>६</sup> वौश्रौ १०, १३: १-३; माश्रौ ६, १, ३, २०; मारु १, ६, २; २३, ६; -†युजे<sup>६</sup> आपश्रौ १०, ८, ५××; वौश्रौ.

प्रायुज<sup>६</sup>- -जेषु वौश्रौ २४, ११: ५.

प्रयुग्-हविस- -वीषि काश्रौ १५, ९, ७.

प्रयुजां-हविस- -विभि: आपश्रौ १८, २२, ५; २२, २५, १३; वौश्रौ १२, १९: १५; १९; १८, ५: १७; १८; ६: १९; २०; हिश्रौ १३, ७, २३; २३, ४, ८.

प्रयुजव- -जन् वाश्रौ १, ३, ७, २०.

प्रयुज्य शाश्रौ १५, १२, ८; आपश्रौ १, १५, ७××; काश्रौसं.

प्रयुज्यमान- -ना: हिश्रौ १, १,

१३; -ने पा ८, २, १०१.

प्रयुजव- -जन् गौषि २, ४, ७; ८. प्रयुजती- -ती ऋश्र २, ५, ४७†,

प्रयुजान- -न: आश्रौ २, १२, ६; वौश्रौ २८, २: ५८; लाश्रौ;

-नस्य शाश्रौ ३, ८, ५.

प्रयोक्तव्य, व्या- -व्य: अप ३१, ४, ४; माशि १३, १०; याशि;

-व्यम् नाशि १, १, २; -व्या अप ७०<sup>२</sup>, ६, ५; कौशि ६४; ६६; -व्या: वौश्रौ २६, ५: १; २७, ६: २४; अप; -व्ये वृदे ३, ३१.

प्रयोक्तृ- -क्तरि मीसू ३, ७, १८; -क्ता अप ३१, ७, ४ -क्तु: ऋप्रा १३, १३; पावा ३, २, १११.

प्रयोक्ष्यमाण- -ण: आश्रौ २, १५, १; -णानाम् आपश्रौ २०, १०, ८; हिश्रौ १४, ३, ५.

१प्रयोग<sup>६</sup>- पाग ५, १, ६४; ७, ३, २०; -ग: आश्रौ २, १४, ३; शाश्रौ; या ७, ३१; -गम् आपश्रौ २०, १०, ८; अप ३३, ४, १;

मीसू ११, १, ६४; -गस्य जैश्रौका २१५; अप ४७, २, ८;

गौघ; -गाणाम् निस् २, ८: ७; -गात् वैश्रौ १३, ६: १३;

अप ३६, २, ६; आपश्रु; -गान् माशि ४, ९; १५, २; पाशि २७;

नाशि २, ८, १२; १७; -गाय मीसू ६, २, ७; -गे वाश्रौ १, १, १, १;

हिश्रौ; -णेण वौश्रौ २७, ४: २७;

-णेषु माशि ६, ४: ८.

प्रायोगिक- पा ५, १, ६४;

a) पा १, ३, ६४ परामृष्ट: द्र.। b) पामे. पृ ५६९ ० द्र.। c) पृ १७२२ i द्र.। d) पर्थुं इति.

-पाठ: ? यनि. शोध: ( तु. मदनपारिजात: [७३४] )। e) वैष १ द्र.। f) पामे. वैष १, २१९९ i द्र.।

g) = (प्रयुग्हवि:संवन्धिन्-) यज्ञ-विशेष-। h) भाष.।

७,३,२०.

प्रयोग- नो पावा २,३,१;६६.

प्रयोग-ग्रहण- णम् पावा ८,२,  
८५.प्रयोग-चोदना- ना मीस् ११,  
२,३६.प्रयोगचोदना(ना-ञ्)भाव-  
-वात् मीस् १,३,३०.प्रयोग-त्सः (ः) वृद्धे १,५९; मीस्  
११,३,२१.प्रयोग-द्रीपिका- ऋस् वैश्रौका  
५.प्रयोग-नियमा(म-ञ्)र्थ- र्थन्  
पावा १,४,८०; ३,१,२.प्रयोग-निदेश- -ञात् मीस् ११,  
३,२३.प्रयोग-पृथक्त्व- -क्त्वे हिश्रौ १,  
१,७०.प्रयोग-भूत-त्व- -त्वात् मीस् २,  
२,१६.प्रयोग-रूप-सामर्थ्य- -र्थात्  
मीस् ५,१,१६.प्रयोग-वचना(न-ञ्)भाव-  
-वात् मीस् ५,३,२७.प्रयोग-वचनै(न-ए)क्त्व- -त्वात्  
मीस् ६,३,४; ११,१,३५xx.प्रयोग-विद्- -वित् वृद्धे १,  
१२; माशि ४,१४.प्रयोग-शास्त्र- -स्त्रम् मीस् १,३,  
११.प्रयोग-संनिकर्ष- -र्षः मीस् १,  
१,२६.प्रयोग-समवायित्व- -त्वात् मीस्  
६,८,३९.प्रयोग-साधारण्य- -ण्यात् मीस्  
११,३,२६.प्रयोग-सामर्थ्य- -र्थात् मीस्  
२,१,२९.प्रयोग-सौष्ठव- -त्वात् नाशि  
१५,४.प्रयोगा(ग-ञ्)न्तर- -रे मीस् ६,  
५,५२.प्रयोगा(ग-ञ्)न्यत्व- -त्वात्  
पापावा ३.प्रयोगा(ग-ञ्)र्थ- -र्थे ऋप्रा १३,  
४९; पाशि ३०; नाशि.प्रयोगिन्- > णि-त्व- -त्वात्  
काश्रौ १,५,७.प्रयोगै(ग-ए)क्त्व- -त्वे मीस् ४,  
२,३१.प्रयोगो(ग-उ)पत्य(त्ति-ञ्)  
शास्त्रत्व- -त्वात् मीस् १,३,२४.प्रयोग- -गः ऋञ् २, ८,  
१०२; साञ् १, १९; २१; चाञ्  
१६ : ११.

प्रयोगक- -कः पावा ३,१,२६.

प्रयोगकत्व- -त्वात् मीस् ११,  
३,३८.प्रयोजन- -नम् हिश्रौ ८,१,४०;  
वौष ३,१,१४; अप्रा; पा ५,१,  
१०९; -नात् माश्रौ ६, १६,  
६xx; -ने आपाव २, २६, ३;  
हिध २, ५, १९८; -नेन पावा  
५,१,१२; मीस् ४,३,२९,३४.प्रयोजन-योद्ध- -द्धम्भ्यः पा  
४,२,५६.प्रयोजन-वत्- -वत् मीस् १०,  
४,३६.प्रयोजना(न-ञ्)न्यत्व- -त्वम्  
मीस् २,३,२४.प्रयोजना(न-अ)भिसंबन्ध-  
-न्धात् मीस् ११,१,१.प्रयोजना(न-ञ्)र्थ- -र्थम् मीस्  
२,३,२.प्रयोजनै(न-ए)क्त्व- -त्वात्  
मीस् ३,६,३८; ११,४,७;४५.प्रयोजयत्- -यत् विध ६७, ३७.  
प्र-योजयित्- -त्ता आपाव २, २९,  
१; हिध २,६,१४.प्रयोज्य,ज्या- पा ७,३,६८; -ज्यः  
कप्र ३, ४, ७; ऋप ३३, ३, १;  
अशां २३, १; गौष २, ४३;  
-ज्यम् काण्ड ४४ : १०; नाशि  
४, ६; आज्यो ५, ८; -ज्याः  
कौशि ५२.

प्र. युञ्, प्रयोधयेत् आत् ३,१२,१६.

प्र-यै प्र. या द्र.

प्र-योक्तव्य- प्रत्. प्र. दुद् द्र.

प्रयोज्यामः<sup>०</sup> दंवि १,३.

प्र-रथ- पाग २,१,१७.

प्र. रद्, प्र... ऋदत् ऋप्रा २,४६.

प्र. रम्, प्ररमयति या २,१८.

प्र. राच् > प्र-राच्य- -ध्यम् काश्रौ  
२,९,१२.प्र. रिच्, प्ररित्ति वैश्रौ १३,२८;  
१८; १९; प्र... रित्ति ऋप्रा २,  
३८; प्र (रित्ति) साञ् २,३१२;  
प्र (रित्ति) काश्रौ ३,७,१३;  
शाश्रौ १, ८, ११; ६, १०, ९;  
माश्रौ ५,२,८,३१; प्ररित्त्व या  
३,६६.प्र-रक्- -कः आपाश्रौ १८, १३,  
२२; -कम् आपाश्रौ १८, १६,  
१३; वैश्रौ १०, ५४ : ११xx;  
वैश्रौ १९, ६ : १२०; -काः  
वैश्रौ १२, ८ : २४; -के वैश्रौ  
१८, १८ : १०; -रेः वैश्रौ १९,  
६ : १२४.

a) उप. <√विद् [ज्ञाने]। b) व्य. (ऋपि-)। वैष १ द्र.। c) पाठः? प्रयोज्याः, तद् इति  
द्विभेदः शोधः विमृश्यः। सत्य. ?दन्त्याः > दन्त्यात् इत्यपरः शोधः (तु. संत्कर्तुः टि.)। d) =संगत-।

प्र√रुच्, प्ररोचयति मांश्रौ १,७,३,  
२३××; वाश्रौ १,६,१,२९.

प्र√रुञ् > प्र-रुञ्च वौश्रौ १,१८:२.

प्र√रुद्, प्ररोदिति अप ७०<sup>३</sup>, ११,  
३०.

प्र-रुद्(त् >)न्ती- न्त्याम् शांयु  
१,१५,२.

प्र√रुध् > प्र-रोधन<sup>१</sup>- नन्म भाशि  
४७<sup>१</sup>.

प्र√रुह्, प्ररोहति काथ २७६:६;  
२८०:६;७; प्ररोहन्ते अप १०,  
१,२१; प्ररोहसि शांयु ६,६,९<sup>b</sup>;  
प्ररोहन्तु पायु ३, १५, २०;  
प्ररोहेत अप ७०,१०,३; प्ररोहेयु:  
अप ६७,२,२.

प्र-रुद्-> ष्ट-कक्ष<sup>१</sup>- श्ने आपश्रौ  
८,५,२.

प्र-रोप्य वौश्रौ २१, २४:१९.

प्र-रोह<sup>१</sup>- पाग ४, ४, ६२<sup>०</sup>; -हः,  
-हम्, -हाय वंताश्रौ २६,११.

प्रारोह- पा ४,४,६२.

प्र-रोहण- (> णीय- पा.) पाग  
५,१,११.

†प्र-रोह(त् >)न्ती<sup>b</sup>- न्ती आपश्रौ  
१६,२४,१; वौश्रौ: वैश्रौ १८,  
१७:३१<sup>१</sup>; हिश्रौ.

प्र-रेक- प्र√रिच् द्र.

प्र√रेज्, प्र (रेजते) माश्रौ ५,१, ६,  
४३<sup>१</sup>.

प्र√रुल्, प्रलपन्ति अप ७०<sup>३</sup>,७,१८.  
प्र-लाप- -प: वृदे १,३७; ५५.

प्र-लापिन्- पा ३,२,१४५; -पिन:  
अप ६८,१,३८<sup>२</sup>.

प्र√रुल्म् > प्र-रुल्म्<sup>६</sup>- न्म: अप

५३,३,१.

प्रलम्ब-ज( ह्घा > )ह्घा<sup>६</sup>-  
-ह्घा: वौश्रौप्र २५:२.

प्र√रुल्भ्,म्भ् > प्र-रुल्भन- न्ने पा  
१,३,६९.

प्रलम्भन-शालीनोकरण- -णयो:  
पावा ६,१,४८.

प्र-रुलाट<sup>१</sup>- -टे वौश्रौ १०,३०:११;  
वैश्रौ १८,१७:१५.

प्र√रुलिख्, प्रलिखते वौगृ १,७,२८;  
प्रलिखति पायु २, १४, १५;  
†प्रलिखताम्, प्रलिखन्ताम् कौगृ  
४, २, ३; शांयु ४, १५, ७;  
प्रलिखस्व पायु २, १४, १६<sup>३</sup>.

प्र-रुलिख्य कौसू ७६,५.

प्र√रुलिप्,म्प्, प्रलिम्पते काश्रौ  
१५, ६, ८; प्रलिम्पति माश्रौ ६,  
१, २, २६; कौसू २६, २९××;  
प्रलिम्पन्ति वौश्रौ १५, ३०:  
१२; वाधूश्रौ ३,८१:५; हिश्रौ  
१४, ४, १८; प्रलिम्पताम्,  
प्रलिम्पन्ताम् शांयु ४,१५,८<sup>१</sup>.

प्र-रुलिप्य शांश्रौ ४,१५,२२; आपश्रौ.  
प्र-ले(पक >)पिका- (> प्रालेपि-  
का- पा.) पाग ४,४,४८.

प्र-लेप्स्यमान- -न: भागृ २,२०:३.

प्रलिश<sup>६</sup>- -श: सु २३,३.

प्र√रुलिह्, प्रलेहयेत् वौश्रौ २३, १:  
४४; ४५.

प्र-लेहन- -नात् गोयु ३, ६, ३; द्रायु  
३,१,४५.

प्र√रुली, प्रलीयते अप ६८, २, २५;  
६९,६,४; ७०<sup>३</sup>,९,३; प्रलीयन्ते  
अप ६८,२,३४.

प्र-लय- -यम् अप ७१, १९,४; वृदे  
१,६१.

प्रालेय- पा ७,३,२.

प्रलया(य-अ)न्त<sup>१</sup>- न्तम् वैध  
१,११,४.

प्र√रुलुप्, प्रलुप्येत याशि १,७९.

प्र√रुलुभ्, प्रलुभे शांयु ३,१३,५<sup>१</sup>;  
†प्रलुलोभ<sup>१</sup> वौश्रौ २,१०:६;  
आपमं २, १९, १××; कौगृ ३,  
१५, ५; आमिगृ ३, १,१:२०;  
वौगृ २,११,२८; हिगृ २,१०,७.

प्रवक- √पु द्र.

प्र-वकल<sup>१</sup>- -लानि वौश्रौ १५,१४:१.

प्र-वक्तृ- प्रम्. प्र√वच् द्र.

प्र√वच्<sup>०</sup>, †प्र (विवक्मि) शांश्रौ १०,  
५,२४; ऋअ २, ७, ६; वृदे ५,  
१६१.

प्रोवाच आश्रौ १२, ९, १८;  
शांश्रौ १४, १२,२××; वाधूश्रौ

या १०, ३२; १४, १; प्रोचुं:  
शांश्रौ १४, ४०, १; वौश्रौ:

प्र...वक्षे या ५,८<sup>१</sup>†; प्रवक्ष्ये  
हिपि १७:१; प्रवक्ष्यामि आमिगृ

२, ५, १:५; ७, ७:१;  
जैगृ; प्रवक्ष्याम: वाधूश्रौ ४,११:

१३; अशां २०, १; या ९,३<sup>१</sup>.

†प्र (वोचाति) ऋअ २,१०,७५;  
वृदे ७,११५; †प्र...वोच > चा

वृदे ५; ११९; ऋप्रा ८,२९; प्र  
(वोच > चा) ऋअ २,६, ५९<sup>१</sup>;

प्र...वोचयम् या १०, ४२<sup>१</sup>†;  
प्र (वोचयम्) वृदे ४, ४; †प्रा-  
वोच: भाश्रौ १०, २,२<sup>१</sup>; वैश्रौ

१२, १:११; सायु २, २५:

a) वैप १ द्र. । b) पाभे. वैप १,२२०१ b द्र. । c) वस. उप. = गुल्म- । d) भवे कर्तरि च क्तु । e) पुरोह- इति पाका. । f) णन्ति इति पाठः? यनि. शोधः । g) उप. कर्तरि प्र. । h) = ऋपि-विशेष- । वस. । i) प्रास. । j) सपा. कौगृ ४,२,३ अनुलिङ् इति पाभे. । k) व्यप. । व्यु. ? । l) वस. वा. किवि. । m) परस्परं पाभे. । n) वस. उप. = वल्कल- । o) पावा ७,३,६६ परामृष्टः द्र. ।

१२<sup>३</sup>, १३; †प्रवोचः वौश्रौ ९,  
१६ : २८; १४, २० : ४; प्र...  
वोचः या ८, २०<sup>†</sup>; प्रवोचत  
ऋप्रा ८, ३<sup>†</sup>; †प्र (वोचत)  
आश्रौ ६, ४, १०; शाश्रौ; †प्रावो-  
चम्<sup>१</sup> माश्रौ १, ४, ३, १७; वाश्रौ  
१, १, ४, ३३; ३४; †प्र...अवोचम्  
अप्राय ६, ८; ९; †प्र (अवोचम्)  
माश्रौ ४, ४, ३८; कागृ ४२, १;  
७१, १४; †प्रवोचम् आश्रौ ५,  
२०, ६<sup>१</sup>; वौश्रौ; या ७, २; ३;  
११, ४३; ऋप्रा ८, ३<sup>०</sup>; प्रा-  
( < प्र )वोचम् अप्रा २, ३,  
१<sup>†</sup>; †प्र...वोचम् वौश्रौ १७,  
४४ : १४; वाधूश्रौ; †प्र (वोचम्)  
आश्रौ ८, १, १७; ९, ५, १६;  
शाश्रौ; प्र...अवोचाम वाधूश्रौ  
३, १ : १०<sup>†</sup>.  
प्रोच्यते निसू ६, २ : ११; विध  
९७, १५; नाशि १, ८, २;  
प्र( उच्यते ) साअ १, ५७३<sup>†</sup>;  
प्रोच्येते ऋप्रा १७, ४१.  
प्रवक्ष्यते अप ५८<sup>३</sup>, १, ७; प्रव-  
क्ष्यन्ते काध २७५ : १.  
प्रवाचयेत् जैश्रौ १ : २०; प्रवा-  
चयेत् गोगृ १, ३, १७; कप्र २,  
८, २३.  
प्रवक्तृ- पा २, १, ६५; -क्त्रे  
आश्रौ १, २, १<sup>†</sup>; आपगृ १३,  
२०.  
प्रवक्ष्यत्- -क्ष्यत्सु आश्रौ ४, ४,  
२; -क्ष्यन् वृदे ५, ७३.  
प्रवचन- पाग ८, १ २७; -नम्

द्राश्रौ १, २, १२; लाश्रौ १, २, ७;  
पागृ; या ४, २५; -नात् मीसू  
१, १, ३०; -ने द्राश्रौ १, २, १५;  
लाश्रौ १, २, ९; साअ १, २, ६७.  
प्रावचन<sup>१</sup>- -नः शुप्रा १,  
१३२; नाशि १, १, ८.  
प्रवचन-कर्तृ- -र्तृभ्यः आमिगृ १,  
२, २ : ३०; हिगृ २, २०, १.  
प्रवचन-कार- -राय वीगृ ३, ९,  
६.  
प्रवचन-प्रतिषेध- -धः मीसू १२,  
३, २१<sup>†</sup>.  
प्रवचन-न्याजन-प्रतिग्रह- -हाः  
गौध १०, २.  
प्रवचन-युक्त- -क्तः आपध १,  
३२, १; हिध १, ८, ४३.  
प्रवचन-लक्षण<sup>१</sup>-त्व- -त्वात्  
मीसू १२, ३, २४.  
प्रवचन-शेष- -पः हिश्रौ २१, २,  
३५.  
प्रवचनीय- -यः शांगृ ३, ५, ३<sup>१</sup>;  
-याः चव्यू २ : ३८.  
प्रवाच<sup>१</sup>- पा ७, ३, ६६; -च्या  
आमिगृ २, ३, ५ : १९<sup>†</sup>.  
प्रो(प्र-उ)क्त, क्ता- -क्तः कप्र २, ३, ४;  
३, ८, ११; अप ८, २, १××; अशां;  
-क्तम् वौश्रौ १७, ४३ : १६××;  
आपगृ; पा ४, ३, १०१; -क्ता  
कप्र १, ३, १; ७, २; अप; -क्ताः  
कागृ ४२ : १५; वैगृ १, ८ : ९;  
कप्र; -क्तात् पा ४, २, ६४<sup>१</sup>;  
-क्तानि अप ४, १, २३; ६९, ६,  
१; -क्तायाम् द्राश्रौ १, २, १८;

लाश्रौ १, २, १२; -क्ते आश्रौ ५,  
१०, २; शाश्रौ १७, १७, ११;  
काश्रौ; -क्तेषु वौश्रौ १, ७ : १;  
-क्तौ अप २३, ५, १.  
प्रोक्त-ग्रहण- -णम् पावा ४, ३,  
१०१.  
प्रोक्त-व(त् >)ती<sup>१</sup>- -त्यः निसू  
६, ९ : १.  
प्रोक्ता(क्त-आ)दि- -दयः पापा  
१३.  
प्रोक्ता(क्त-अ)धिकार- -रे पावा  
४, २, ६६.  
प्रो( प्र-उ )च्य वाधूश्रौ ३, १ : ९;  
वैश्रौ २१, ६ : ८; हिश्रौ.  
प्रो(प्र-उ)च्यमान- -नम् अप ७०<sup>२</sup>,  
१, ४; -नाः शैशि २०१.  
प्र-वण, णा<sup>१</sup>- पा ८, ४, ५; -णः तैप्रा  
१, ४७<sup>३</sup>; -णम् वौश्रौ १८, ४८ :  
२३; वैगृ; -णाम् वौश्रौ ६, २३ :  
७<sup>१</sup>; २४, २४ : १५; माश्रौ २,  
२, १२; हिश्रौ १, ६, ९६.  
प्रवण-वत् मीसू १, ३, २२.  
प्रवण-व(त् >)ती- -न्ति या ११,  
३७.  
‡प्रवणेजाः या ९, ८<sup>०</sup>.  
†१प्र-वत्<sup>१</sup>- -वतः आश्रौ २, १९, २३;  
आमिगृ ३, ५, २ : १; वौपि १, २ :  
१; कौसू ८१, ३४; या १०,  
२०<sup>१</sup>; -०वतः अप ३२, १,  
१४; अअ १, १४; -वता वीगृ  
२, ६, १३; -वते वौश्रौ १३,  
३५ : २; १८, ४८ : २; हिश्रौ २२,  
५, २०.

a) पाभे. वैप १, २१८४ r द्र. । b) पाभे. वैप १, २२०२ g द्र. । c) पाभे. वैप १, २२०२ a द्र. ।

d) पाभे. वैप १, २२०२ i द्र. । e) विप. । भवार्थे इदमर्थे वा अण् प्र. । f) प्रायव इति जीसं. प्रयासं., प्राव इति केवलानन्दः । g) वस. । h) सप्र. कौगृ ३, ४, ३ प्रपदनीयः इति पाभे. । i) वैगृ १ द्र. । j) = प्रोक्ता-थेक-प्रत्यय- । k) = ऋच्- । l) वैप १ द्र. (वैतु. गोपालयज्जा < प्र✓वच् इति) । m) = स्वरित-पर्याय- । n) प्रणवाम् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. माश्रौ.) । o) तु. राज. । \*वे इति लसं. । p) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र. ।

†प्रचत्-व(त>)ती- -०ति आपमं  
 २, १८, ९; या ११, ३७६.  
 २प्रचत्<sup>a</sup>- -वन्ति निस् ७, १२: २१.  
 प्रवती- -ती निस् ७, २: ५;  
 ८, ५: १६; -तीभिः निस् ७, २:  
 ३०; -त्यः निस् ७, २: ५; ३१;  
 -त्या निस् ७, २: ११.  
 प्रचद्-भार्गव<sup>b</sup>- -वम् जैश्रौ २४:  
 ४; द्राश्रौ २, २, २२; लाश्रौ १, ६,  
 २०; जुसू ३, १०: २९.  
 प्रचद्भार्गव-सामन्- -म जैश्रौका  
 ४०.  
 प्रचद्-योनि<sup>c</sup>- -नि निस् ७, २:  
 २१.  
 †प्रवताऽऽयन्ति<sup>d</sup> वीगृ २, ६, १३;  
 कौसू ५६, १७.  
 प्रचत्स्यत्- प्रसृ. प्र√वस् द्र.  
 प्र√वद्, प्रचदति वागृ १३, ३; या  
 १४, १; †प्र<sup>e</sup>वदति आपश्रौ  
 ५, १९, ३; हिश्रौ ३, ५, ४;  
 †प्र(वदति) आश्रौ ५, १४, ६;  
 शाश्रौ; प्रचदन्ति वागृ १३, ५;  
 कप्र १, ८, २०; अष; प्रचदतु वागृ  
 १३, ३५; प्रचदन्तु द्राश्रौ ११,  
 २, १; लाश्रौ ४, १, ११; प्र<sup>e</sup>  
 वदन्तु आश्रौ ५, १२, ९५; या ९,  
 ९; †प्र(वदन्तु) ऋअ २, १०, ९४;  
 वृदे ७, १४६; †प्रचद् द्राश्रौ ११,  
 १, ५; लाश्रौ ४, १, ५; प्र<sup>e</sup>वद्  
 शाश्रौ १, ६, २५; प्र<sup>e</sup>वदाम या  
 ९, ९५; प्रचदेत् भाश्रौ ६, ९, ७;  
 हिश्रौ ३, ७, ९.  
 †प्र<sup>e</sup>वदिव्यामि शाश्रौ १७,  
 १७, १; द्राश्रौ ११, २, ११; लाश्रौ

४, २, १०; प्रावादिषुः या ९, ६;  
 प्र<sup>e</sup>वदिव्यामि या ९, ६५.  
 प्रवाद्यते कागृ १७, २; वागृ  
 १३, ४; प्रवाद्यति शाश्रौ १७,  
 १४, ८; प्रवाद्यन्ति शाश्रौ १७,  
 १४, ९.  
 प्रचदन- -नात् शाश्रौ ४, २१, २२;  
 १७, १७, ३; -ने वागृ १३, १०<sup>f</sup>.  
 प्रचदित्- -ता हिश्रौ १७, ७, १५.  
 प्रचदितोस्(:) काश्रौ ९, १, १०;  
 आपश्रौ १२, ३, १४; वीश्रौ.  
 प्रचाद- -दाः वृदे ३, ६५××; या  
 ७, २३; ८, २; ऋप्रा ४, ६१; ९,  
 ३५; -दात् आश्रौ ४, १३, १;  
 -देन निस् २, ३: २४; वृदे २,  
 १८; -देषु वृदे ३, ४६; ऋप्रा १३,  
 २४; -दौ ऋप्रा २, ७४.  
 प्रचाद-वहुल-त्व- -त्वात् वृदे ४,  
 ४३.  
 प्रचादिन्- पा ३, २, १४५; -दिनः  
 ऋप्रा ११, ४०.  
 प्र√वन्, †प्र<sup>e</sup>वन्ने वीश्रौ १७, ३:  
 ४; हिश्रौ ९, ७, २१.  
 प्र√वप् (वधा.), प्रवपते माश्रौ २, १,  
 १, २४; प्रवपति आपश्रौ १०, ५,  
 ८; वीश्रौ; †प्रवपे वीश्रौ २, ८:  
 ७; ६, २: ३; भाश्रौ; प्रवपेत्  
 आपश्रौ १६, १३, ४; वाश्रौ.  
 प्रवापयेत् आज्यो ३, ३.  
 प्रचपत्- -पतः वीश्रौ १८, १९:  
 ७; वीगृ २, ४, १४; मागृ १, २१,  
 ८; -पन् पागृ २, १३, ७.  
 प्रचपन<sup>g</sup>- -ने कौगृ १, २१, १८;  
 शागृ १, २८, २१; -नौ वागृ ४,

१६.  
 प्रो (प्र-उ) प्य वैश्रौ १२, ६: १.  
 प्रचयस्<sup>h</sup>- -यसः आगृ ४, २, २; ५, ३;  
 आम्रिगृ ३, ५, ३: ९; वीपि १, ३:  
 ८; -यसम् हिश्रौ ६, ८, ८; -याः  
 आपश्रौ ८, ७, ५; १२, ५; भाश्रौ  
 ८, ९, ११; अप ४८, ७०<sup>h</sup>;  
 निघ ३, २७<sup>h</sup>।  
 प्रचयया- प्र√वी द्र.  
 १प्रचर- प्र√वृ (वरणे) द्र.  
 २प्रचर- प्र√वृ (आच्छादने) द्र.  
 प्रचरण-, -रित्वा प्र√वृ (वरणे) द्र.  
 प्रचर्ग-, -र्य- प्र√वृत् द्र.  
 प्र√वृर्ण, प्रवर्णते ऋअ ३, २.  
 प्रचर्त- प्रसृ. प्र√वृत् द्र.  
 प्रचर्धन-, -धमान- प्र√वृध् द्र.  
 प्रचर्यमाण- प्र√वृ (वरणे) द्र.  
 प्रचर्षण-, -र्षत्- प्र√वृष् द्र.  
 प्र√वलह् > प्रवलह- > °ल्ह-क- >  
 °ल्हिका<sup>i</sup>- -का वृदे १, ३५;  
 ५७; -काः शाश्रौ १२, २१, ३;  
 वैताश्रौ ३२, २१.  
 प्रवलहिका(का-आ)दि- -दिषु  
 वैताश्रौ ३२, २४.  
 प्रचलित, ता- -तम् अप ४८,  
 १४५; या ७, ११; -ता या  
 १३, ८.  
 †प्र√वग्, प्र(वप्ट) साअ १, ५५३<sup>k</sup>.  
 प्र (विषट्) साअ १, ७८<sup>l</sup>.  
 प्र√वस् (\*यात्रायाम्), प्रवसति शाश्रौ  
 २, १५, ६; ४, १३, ४; वीश्रौ;  
 प्रवसामि वाधुश्रौ ३, ५: २;  
 प्रवसेत् आपश्रौ ३, १३, ४; ६,  
 २५, २; ९, ४, १५; भाश्रौ.

a) पूष. = प्र-शब्द-।

b) = साम-विशेष-।

c) वस.।

d) शोषः वैप २, ३६. द्र.।

e) = कर्म-विशेष-।

f) पामे. पृ १७१८ d द्र.।

g) भाष., नाप. (मन्त्र-).।

h) विप., नाप.।

वस. उप. = आगृस्-।

i) पुराण-नामन्-।

j) = प्रहेलिका-। <प्र-व(ल्ह)> ल्ही- इति (पक्षे) अभा.।

k) पामे. वैप १, २२०४ l द्र.।

l) वैप १, २२०४ m द्र.।

†प्रवत्स्यामि आपश्रौ ६, २७, २;  
वैश्रौ २, १० : १६; हिश्रौ ६, ७,  
८; प्रावात्सम्<sup>१</sup> वैश्रौ २, १० :  
१७†; †प्रावात्स्यम्<sup>२</sup> आपश्रौ ६,  
२७, २; हिश्रौ ६, ७, ८.

प्रवासयति वैगृ ४, ४ : २४; ६ :  
९; प्रवासयेत् अप ७१, ७, २.

प्र-वत्स्यत्- -स्यतः वैश्रौ २, १० :  
१४; चाअ २:१६; -स्यन् आश्रौ  
२, ५, १; शाश्रौ २, १४, १†; काश्रौ  
भवत्स्यद्-उपस्थान- -नम्  
आपश्रौ ६, २७, १; शुअ १,  
२००; चाअ ७ : ५; -ने आपश्रौ  
६, २६, २; -नेन काठश्रौ २०;  
२१.

प्र-वसत्- -सतः काठश्रौ २१;  
वौश्रौ २०, २ : ५××; भाश्रौ;  
-सति आपश्रौ १, १७, ३; वौश्रौ;  
-सन् आश्रौ २, ५, १९; शाश्रौ;  
हिपि २३ : ३.

प्र-वस्य<sup>३</sup>- -थम् आपश्रौ ६, २४, ५;  
भाश्रौ ६, ४, ८; वाधूश्रौ २, ६ :  
१; ३, १८ : ७; -थात् भाश्रौ  
६, ५, ८.

प्रवसथ-कल्प- -ल्पः भागृ ३,  
३ : १२.

प्रवसथा(थ-आ)हुति- -तिम्  
वौश्रौ २०, २३ : १५; -तौ  
वौश्रौ २०, २३ : ९.

प्र-वसित- -ने विध ६, २७; २५, ९.

प्रवसिता(त-अ)गिनहोत्रिन्-  
-त्री विध ६८, ६.

१प्र-वास- पाग ४, ४, १०३; ५,  
१, ९७; १०१; पावाग ५, १,  
९७; -सः हिश्रौ ६, ७, ४; १७,

२, ३१; -सम् आश्रौ २, ५, ७;  
आपश्रौ; -सात् माश्रौ ६, २,  
६, २६; आगृ; -से आपश्रौ ९,  
४, १७; २२, ५, ४; हिश्रौ; -सेषु  
कप्र ३, ५, ४.

प्रावास- पा, पावा ५, १, ९७.

प्रावासिक- पा ४, ४, १०३;  
५, १, १०१.

प्रवास-निमित्त- -त्तम् वौश्रौ  
२९, ९ : ४.

प्रवासा(स-आ)गमन- -नम्  
वैगृ ३, २२ : ४.

प्रवासागमन-पिण्डवर्धन-

-नयोः वैगृ ६, ५ : ५.

प्र-वासिन्- पा ३, २, १४५; -सिनः  
कागृ ४१ : ९.

प्रो(प्र-उ)पित,ता- -त्तः आपश्रौ ९,  
११, २२; काश्रौ २५, ८, ८;  
पागृ; -त्तम् कप्र १, ६, ७; ८;  
-ताम् आगिनगृ २, ७, १० :  
१३; -तायाम् हिश्रौ ८, १, ४६;  
-ते काश्रौ ३, ६, ९; आगिगृ ३,  
९, ३ : १६; वौपि २, ७, १५;  
शंघ ३४१.

प्रोपित-प(ति>)ली<sup>४</sup>- -ली  
वाध १७, ७५.

प्रोपित-भर्तृका<sup>५</sup>- -काणाम् शंघ  
३४१.

प्रो(प्र-ऊ)पिवस्- -वांसम् आपश्रौ  
६, २५, ४†; -?पुषः<sup>६</sup> भाश्रौ ६,  
६, ३.

प्रो(प्र-उ)प्य आश्रौ २, ५, १४; शाश्रौ.  
प्रोप्य-पापीयस्- पाग २, १,  
७२.

†प्रवसत्यवसति<sup>७</sup> वौपि २, ६, ९.

प्र√वह<sup>१</sup>, †प्रवहन्ति हिश्रौ ३, ८, ४;  
१३, ५, १४; या १४, ३४; †प्रव-  
हताम् आपमं १, २, ८; कागृ  
२५, ५; वौगृ १, ५, ३; जैगृ १,  
२२ : २; †प्रवहन्तु वौश्रौ २,  
८ : १०××; आगृ २, ४, १४;  
प्र(वहन्तु)अअ १६, १†;  
†प्रवह आश्रौ ६, ३, १; शाश्रौ  
९, ५, २; आगृ २, ६, ५; †प्र<sup>२</sup>  
वह>हा वौश्रौ २, १० : १५;  
वौगृ २, ११, ३२; †प्रवहतात्  
आपश्रौ १, २१, २; वौश्रौ;  
†प्रवहत आश्रौ ३, ५, २××;  
काश्रौ; प्रवहेत् आपध १, ११, ८;  
हिध १, ३, ६५; प्रवहेयुः आपश्रौ  
६, २८, ४; भाश्रौ ६, ६, १२.

?प्रवक्ष्यति गोगृ ३, ७, १४.

प्रवाहयते कागृ २६, ५; प्रवाह-  
यति आपश्रौ १, १०, ७; भाश्रौ  
१, ९, १२; ७, २, १; भाश्रौ;  
प्रवाहयन्ति हिगृ १, २२, १;  
हिपि १८ : १९; प्रवाहयामि  
अप २०, ७, ९†; प्रवाहयेत् आश्रौ  
२, ७, ९; अप ४०, ६, १३; प्र<sup>३</sup>  
वाहयेत् आपगृ ५, १२.

प्र-वह(त>)न्ती- -न्तीनाम् वाश्रौ  
३, ३, २, १५.

१प्र-वाहण<sup>४</sup>- -†णः शाश्रौ ६, १२,  
११; वौश्रौ ६, २९ : ६; भाश्रौ;  
-णम्<sup>५</sup> वैगृ १, २० : ८××;  
-णाय काठश्रौ १५३; वौश्रौ  
२५, १९ : ३†.

प्रवाहणी- -णीम् वाश्रौ १, २,  
३, ३२; हिश्रौ ५, ४, ८८; -ण्या  
आपश्रौ १, १०, ७.

a) परस्परं पाभे. । b) वैप १ द्र. । c) वस. । d) पाठः? प्रोपितः इति शोधः (तु. खदत्तः  
[आपश्रौ ६, २६, ७]) । e) पाठः? प्रवत्स्यत्->-त्स्यन् इति शोधः (तु. B., सप्र. हिपि २३ : ३ प्रवसन् इति  
पाभे.) । f) पा १, ३, ८१ परामृष्टः द्र. । g) उप. भावे कर्तरि करणे च प्र. । h) =परि-येचन- ।



प्र-वाहन- नम् वाधूश्रौ ३, ७६ :  
 १०.  
 प्र-वाहित- -तः अथ २०, ७, ९.  
 प्र-वाहिन्<sup>a</sup>- -हिनः शाश्रौ १२,  
 १४, ११.  
 प्र-वाह्य वौश्रौ २, १० : ३९; ५,  
 १५ : २२; आग्निष्ट.  
 प्रो(प्र-ऊ)ढ- पाग २, १, १७.  
 प्रो(प्र-ऊ)ह्यमाण- -णः तैप्रा ७, ६१;  
 -णयोः हिश्रौ १०, ८, १९;  
 -ऋणाय<sup>b</sup> आपश्रौ १०, २८, ४;  
 वौश्रौ ६, १६ : १; माश्रौ १०,  
 १४, १६; माश्रौ २, १, ४, २९;  
 वैश्रौ १२, २० : ५; १२६; हिश्रौ  
 ७, ३, १७; -णे वैयाश्रौ १३,  
 ११.  
 प्रो(प्र-ऊ)ह्यमान- -नः अप्राय  
 ३, १.  
 प्रौ(प्र-ऊ)ढ- पावा ६, १, ८९.  
 प्रौढ-पाद- -दः शंघ २२६; विध  
 ६८, ४९; गौध १६, १७; -इदो  
 कौसू १४१, ४०.  
 प्रौ(प्र-ऊ)ढि- पावा ६, १, ८९.  
 प्र✓वा, ऋप्र<sup>c</sup>वान्ति आश्रौ २, १५,  
 २; आग्निष्ट ३, ८, २ : १६;  
 वीपि १, १५ : २५; हिपि १५ :  
 ११.  
 प्र-वा<sup>a</sup>- -वा वैयाश्रौ २२, ४१<sup>d</sup>.  
 प्र-वात- -ते वौश्रौ ९, ३ : २३; १०,  
 ६ : १; वैश्रौ १८, १ : ७७.  
 ऋप्रवाते(त-ए)ज<sup>a</sup>- -जाः या ९,

८६.  
 प्र-वाच्य- प्र✓वच् द्र.  
 प्रवाच्<sup>e</sup> आपश्रौ २४, १४, १२.  
 प्र-वाद-<sup>f</sup>, -दिन्- प्र✓वद् द्र.  
 प्रवाल<sup>g</sup>- पाग २, ४, ३१.  
 प्रवाल-वस्त्र-नाश- -शः अथ ६७,  
 ५, १.  
 प्र-वास- प्रष्ट. प्र✓वस् द्र.  
 २प्रवास [हृ<sup>h</sup>]<sup>i</sup>- [> ँसि(, ँहि)-  
 [न्>]नी- पा.] पाग ५, २,  
 १३५.  
 प्र-वासिन्- प्र✓वस् द्र.  
 प्र-वाहण- प्र✓वह् द्र.  
 २प्रवाहण<sup>l</sup>- पाग ४, १, १२३.  
 प्रावाहणि-(> णायन- पा.)  
 पाग २, ४, ६१.  
 प्रावाहण्येय- पा ४, १, १२३; ७,  
 ३, २८.  
 प्रावाहण्येय- पा ४, १, १२३; ७, ३,  
 २८; -याः वौश्रौ १७ : ८.  
 प्रवाहा<sup>j</sup> वाश्रौ १, ४, २, ५.  
 प्रवाहिका<sup>k</sup> पाग १, १, ३७.  
 प्रविक- (> प्राविक्य- पा.) पाग ५,  
 १, १२८.  
 प्र-विग्रह<sup>l</sup>- -हेण ऋप्रा १५, १६.  
 प्र✓विच् > प्र-वेक- -कः निसू ४, २ :  
 २८.  
 प्र-वि✓चर > प्रवि-चार- > चारा  
 (र-अ)र्थ- -र्थम् वौश्रौ २७,  
 ११ : १५; २९, ८ : २६.  
 प्र✓विद्( ज्ञाने ), ऋप्रविद्म आपमं २,

१९, ७; आग्निष्ट ३, १, २ : १; हिष्ट  
 २, ११, १.  
 ऋप्र-विद्मस्- -द्वान् आपश्रौ १६,  
 २६, ६; १२××; वैश्रौ; आग्निष्ट ३,  
 ५, ४ : ११<sup>m</sup>; वीपि १, ३ : २०<sup>m</sup>.  
 प्र✓विद्(लाभे), प्र(अविदत्) ऋप्र २,  
 ३, ५७<sup>n</sup>.  
 प्रविदान-कल्प- -ल्पेन वौश्रौ २४,  
 ३२ : १३; १६.  
 प्र✓विद्, व्यद्, प्रविध्यते माश्रौ १, २,  
 २, २१; प्रविध्यति आपश्रौ १३,  
 २०, १२; १९ ४, ९; ९, ७; माश्रौ;  
 प्रविध्यन्ति आपश्रौ २१, ५, १३;  
 माश्रौ २, २, २, ७; प्रविध्येत्  
 वौश्रौ २२, ५ : १०; २९, १० :  
 ७; माश्रौ ६, १, ३, ११; द्राश्रौ  
 ४, १, ७; लाश्रौ २, १, ६.  
 ऋप्र-विद्- -द्दः माश्रौ १, २, २, २१;  
 वाश्रौ १, २, ४; ५६; -द्म  
 आपश्रौ १, २०, ८; वैश्रौ ४, ७ : ७.  
 प्र-विध्य आपश्रौ १३, २०, १४;  
 माश्रौ.  
 प्र-विध्यन्त<sup>o</sup>- > ँन्त-नामन्<sup>o</sup>-  
 -नामन्ः अथ ३, २६.  
 प्र-व्याध<sup>p</sup>- -धान् आपश्रौ १८, ३,  
 १४; वैश्रौ १७, १२ : २; हिश्रौ  
 १३, १, ३६.  
 प्र-वि✓धा > प्रवि-धान- > ँन-  
 शत- -तेः विध २०, ४६.  
 प्र✓विप्, वेप्, प्रवेपयन्ति हिश्रौ २२,  
 ३, १९<sup>n</sup>.

a) वैप १ द्र. । b) पामे. वैप २, ३३६. प्रोह्यमाणाय ऐत्रा १, १३ टि. द्र. । c) पाठः ? (तु. सस्थ.  
 टि. [✓शी >] शयानः) । d) पामे. वैप १, २२०५ p द्र. । e) पाठः ? प्र✓वृज् > प्रवृक्  
 (लुडि मपु१) इति शोधः । सपा. वौश्रौ ३, २८ : १८ प्रवृट् ? इत्येतदनु शोधार्हः (तु. ऐत्रा ३, ८ प्रमृशः L < प्र✓  
 मृज् हिंसायाम्, J, C [ZDMG ५६, ५५४]) । f) = विद्रुम- , पल्लव- इति पागम. । व्यु. ? । g) भाण्डा. पासि. पाठः ।  
 h) तु. पाका. । i) = ऋपि-विशेष । व्यु. ? । j) पाठः ? । सप्र. माश्रौ १, ५, २, १४ विपेशलाः इति ।  
 k) प्रवा<sup>o</sup> इति भाण्डा. BFG. । l) प्रास. । m) पामे. वैप १, २१३४ । द्र. । n) प्र-विध्यत्- > -ध्यन्तः  
 (शौ ३, २६, ४) इत्यस्यानुकरणम् । o) वस. । p) विप. । उप. करणे घञ् प्र. ।

प्र-वेपिन्- -पिणः या ९, ८.

प्र-वि-**मञ्जु** > प्रवि-भक्त->

क्त-त्व- -त्वाद् मीसू ९, ४, १;  
१०, ४, ४२.

प्रवि-भज्य वृद्धे २, १०६; या २, २.

प्रवि-भज्यमान- -नः आशि १, १.

प्रवि-भाग-> गन्- -ज्ञः चव्यु  
२ : ४०.

प्र-वि-**मुक्** > प्रवि-मुक्त-> क्त-

पाप- -पः अप ११, २, ५.

प्रविमुक्त-व(त्स)त्सा-

-त्सायाः गो २, २२.

प्रवि-मुच्य अप १३, ३, ११.

प्र-वि-**यु** > प्रवि-युत- -त्म् या ९,  
२६.

प्र-वि-**ली**, प्रविलीयते अप ६९, ९, ३.

प्र-वि-**वृत्**, प्र( विवाहते ) साञ् १,  
५१<sup>०</sup>.

प्र-**विश**, प्रविशति शांश्रौ १५, १७,

१<sup>१</sup>; १७, १३, ११; काश्रौ;

प्रविशतः वैश्रौ १४, १६ : ४;

प्रविशन्ति काश्रौ १०, ४, १<sup>१०</sup>;

९, २६; आपश्रौ; <sup>१</sup>प्रविशामि

आपश्रौ १६, १९, १<sup>५</sup>; वैश्रौ १८,

१६ : ७; ८<sup>३</sup>; ९; हिश्रौ; प्रविशा-

मसि कौसू १०४, २<sup>१</sup>; <sup>१</sup>प्रवि-

शतु वौश्र १, ४, ३; भाश्र १,

१७ : ११<sup>४</sup>; प्रविशतात् पाश्र १,

८, १२<sup>१</sup>; <sup>१</sup>प्रविशस्व वौश्रौ

२७, ७ : ५; अप २२, ९, २;

<sup>१</sup>प्रविश आपश्रौ ३, १४, ३<sup>०</sup>;

सु ३०, ६; वौश्र २, ६, १०; गोश्र

२, ८, १४; <sup>१</sup>प्रविशतम् कौसू

२२, ९; अञ् ३, ११<sup>१०</sup>; ७, ५३;

<sup>१</sup>प्रविशानि आपश्रौ ९, ६, १२;

१४, २६, १; वैश्रौ; प्राविशत्

वौश्रौ १८, ३३ : ११<sup>१</sup>; वाधूश्रौ

४, ३० : १३; ६४<sup>५</sup> : २; वृद्धे ७,

६२; प्राविशताम् वाधूश्रौ ४,

१९ : २८; <sup>१</sup>प्राविशः आपश्रौ

१, ६, १; वौश्रौ; प्रविशेत् जैश्रौका

६३; द्राश्रौ १२, १, १५<sup>४</sup>;

लाश्रौ; प्रविशेयुः द्राश्रौ ४, ३,

१०<sup>४</sup>; लाश्रौ; प्रविशेयम् सु

३०, ५.

प्रविशेत् कौसू २२, ९<sup>१</sup>; प्रवेक्ष्यति

आपमं २, ७, १९<sup>१</sup>.

प्रवेशयति काश्रौ ६, ३, १४<sup>४</sup>;

आपश्रौ; प्रवेशयन्ति काश्रौ ७,

९, २८; काश्र ५२, ९; प्रावेशयन्

वौश्रौ १४, १ : ७; प्रवेशयेत्

आपश्रौ १९, १७, १७; वौश्रौ १४,

१५ : १९; २२, ३ : २६; हिश्रौ;

प्रवेशयेयुः लाश्रौ ८, ९, १७.

प्र-वि-**शिवस्**- वांसम् तैप्रा १६,

१३<sup>१</sup>.

प्र-वि-**शत्**- -शन् हिश्रौ १०, २, १;

निसू ४, ३ : ९; कौश्र ३, ४, २;

शाश्र ३, ५, २; -शन्तः द्राश्रौ ३,

१, १०; लाश्रौ १, ९, १०; शंघ

३४५; -शन्तम् आपश्रौ १२,

२६, १६; वैश्रौ १५, ३४ : ३;

हिश्रौ ८, ८, १०.

प्र-वि-**शिवस्**- वांसम् अप्रा २, ३,

१९<sup>१</sup>.

प्र-वि-**श्य** काश्रौ ५, ९, १८<sup>४</sup>;

आपश्रौ.

प्र-वि-**ष्ट**, षा- -ष्टः आश्रौ २, ९, १०;

८, १४, ४; काश्रौ; -<sup>१</sup>ष्टम्

आपश्रौ ४, ८, ३; भाश्रौ ४, १२,

२; हिश्रौ ६, २, १९; -<sup>१</sup>ष्टा

वौश्रौ २, ६ : २७; १०, १३ :

२०; आपमं; -<sup>१</sup>ष्टाः आपश्रौ

१, ८, ७; ४, १, ८; भाश्रौ; -ष्टाम्

अप ७०<sup>३</sup>, ६, ३; -ष्टाम् आपश्रौ

५, १, ७<sup>१</sup>; -ष्टायाम् विष ६, ७;

-ष्टे साश्र २, १७, १; वैश्र ७,

५ : ११; १२; विष ६, २५;

-ष्टेऽष्टे आपश्र १५, ६<sup>१</sup>; -ष्टेषु

द्राश्रौ १५, १, १७; लाश्रौ ५, ९,

१५; -ष्टौ आमिश्र १, ५, ४; ४९.

प्रविष्ट-भस्मन्- -स्म वैश्रौ १८,

११ : १४.

प्र-वेश- -शः कौसू १४०, २; -शम्

अप ७१, १५, ९; -शे आप्यो ५,

२.

प्रवेशा(श-आ)दि- -दि जैश्रौका

१५७; १८३.

प्र-वेशक- -कम् वैश्र १, ९, १५.

प्र-वेशन- पाग ५, १, ९७; १११;

-नम् काश्रौ ४, १५, २८; ११.

१, २२; वौश्रौ १४, १५ : १९;

पाश्र.

प्रवेशन- पा ५, १, ९७.

प्रवेशन-संसार्लन- -ने द्राश्रौ ३,

४, ३५; लाश्रौ १, १२, २०.

प्रवेशना(न-आ)दि- -दि पाश्र

३, १०, ३७.

प्रवेशनीय- पा ५, १, १११.

प्रवेशनो(न-उ)पवेशन- -ने द्राश्रौ

४, ४, ७; लाश्रौ २, ४, ३.

प्र-वेशित- -तेषु द्राश्रौ १५, १, १४;

२, १०; लाश्रौ ५, ९, १३; १०,

१०.

प्र-वेश्य काश्रौ १०, ७, ३<sup>४</sup>; काठश्रौ;

a) वस. । b) पामे. वैप १, २२०७ e द्र. । c) शति इति पाठः? यनि. शोधः (तु. चीत्त.) ।

d) पामे. वैप १, २१८१ j द्र. । e) व इति पाठः? यनि. शोधः (तु. शौ ३, ११, ५) । f) पामे. पृ १७१९ ।

द्र. । g) पामे. वैप १, २२०८ d द्र. । h) कस. ।

कीट १,९,१३<sup>a</sup>.  
 प्र-वेद्यमान,ना- नम् द्राश्रौ १४,  
 १,१७; लाश्रौ ५, ६, १; -नाः  
 द्राश्रौ ३,१,८; लाश्रौ १,९,८.  
 प्र-वेष्ट्य- व्यम् आमिष्ट २,६,२ :  
 ४; वौध २,५,२; आज्यो १०,७.  
 प्र√वी > प्र-व(व्य >) च्या- पा ६,  
 १,८३.  
 प्र-वी(त >) ता- ता हिश्रौ १३,३,  
 ४०.  
 प्र-वीयमा(ण >) णा- णा हिश्रौ  
 १३,३,४०.  
 प्र-चीण- पाग २,१,४०.  
 प्र-चीय प्र√व्ये द्र.  
 प्र√वृ (वरणे), प्रवृणीते आश्रौ १,  
 ३,१; काश्रौ ३, २,७; ९, ८,  
 ७; आपश्रौ; ऋप्र( वृणीमहे )  
 वृदे ६; ४३; साथ १, ५९<sup>b</sup>;  
 प्रवृणीष्व वाश्रौ १,१,५,११<sup>c</sup>;  
 प्रवृणीत आश्रौ १२, १३, ३;  
 आपश्रौ २४, १०, १७; वौश्रौ  
 २४, २८ : ६; प्रवृणीयात् वौश्रौ  
 २०, १२ : २६; माश्रौ १,३, १,  
 २८; प्रवृणीरन् आश्रौ १२, १५,  
 ५; आपश्रौ २४, १०, १२; १३;  
 हिश्रौ.  
 प्रवरयेत् वौश्रौ २४, २८ : ६.  
 १प्र-वर<sup>e</sup>- पाग २, ४, ३१; -रः  
 आश्रौ १२, १३, ५<sup>d</sup>; आपश्रौ;  
 वैध ४,८,४<sup>e</sup>; आज्यो १३, ७<sup>f</sup>;  
 -रम् आपश्रौ २४, ११, १७;  
 वौश्रौ १, १५ : २६××; भाश्रौ;  
 -रयोः भाश्रौ ४,१३,१; -रस्य

हिश्रौ २२, २, ९; मीसू ३, ५,  
 ४७; -राः आश्रौ १२, १०, ५;  
 वौश्रौप्र ५४ : ११; द्राश्रौ ३,  
 ४, ३३; लाश्रौ १, १२, १९;  
 -राणाम् वैध ४, १, २; -रात्  
 आपश्रौ ७, १४, ३; ८, १४,  
 २०××; वौश्रौ; -रान् आपश्रौ  
 २४, ५, १; २६, २५ : १५;  
 वौश्रौप्र; -राय आपश्रौ २, १५,  
 १; ३<sup>g</sup>; भाश्रौ; -रे आपश्रौ  
 ३, १९, ३; काश्रौसं ३२ : ११;  
 वौश्रौ; वैताश्रौ २, १५<sup>h</sup>; -रेण  
 आपश्रौ २, १६, १०; २४, ५, ९<sup>i</sup>;  
 भाश्रौ; -रेषु वौश्रौप्र २ : ४;  
 -रैः वाधुश्रौ ४, ८५ : १२.  
 प्रवर-काल- ले वैध ४, १, ३.  
 प्रवर-ज्ञान- ने वौश्रौप्र ५४ : १६.  
 प्रवर-वत् मीसू ३, ५, ४५.  
 प्रवर-शेष<sup>j</sup>- -वः वैश्रौ ६, ५ :  
 ३; हिश्रौ २, १, ५९; -पम्  
 आपश्रौ २, १६, ११.  
 प्रवर-संवादा ( द-आ ) श्रावण-सं-  
 प्रैप- -वेभ्यः हिश्रौ १, १, २६.  
 प्रवरा ( र-अ ) ध्याय- > ध्यायो-  
 ( य-उ ) कथशास्त्र-कृतसंख्या-नि-  
 गम- -माः चव्यू २ : ३१.  
 प्रवरा ( र-आ ) तुपूर्व्य- -व्यम्  
 वौश्रौ १६, २ : १०; -व्येण  
 शाश्रौ ६, ९, १६.  
 प्रवरो ( र-ऊ ) ह-नामधेयग्रहण-  
 -णानि आपश्रौ २४, १, ३५.  
 प्र-वरण- > ण-वेला- -लायाम्  
 वाश्रौ ३, २, १, २१.

प्र-वरित्वा आश्रौ ४, १, १७.  
 प्र-वर्यमाण- -णे वाश्रौ १, १, २, ३१.  
 प्र-वृणान- -नम् आश्रौ १, ३, २३<sup>k</sup>.  
 प्र-वृत्- -वृत्तम् वैताश्रौ २६, ८<sup>l</sup>;  
 -वृते माश्रौ १, ८, ३, १४; २,  
 १, ५, १७; २, ५, ७.  
 प्र-वृत्- -तः शाश्रौ १, ६, २; वौश्रौ  
 ९, १८ : २९; -तः-तः आपश्रौ  
 ११, २०, १; वौश्रौ ७, ९ : १३;  
 माश्रौ २, ३, ६, १८; हिश्रौ ७,  
 ८, ४४; -ताः वैताश्रौ १८, ५.  
 प्रवृत्-होम<sup>m</sup>- -मयोः लुसू १,  
 ८ : १४; -मान् जैश्रौ १० : ३;  
 -सौ काश्रौ ९, ८, १५<sup>n</sup>; आपश्रौ  
 ११, २०, १; द्राश्रौ ३, ३, १७;  
 लाश्रौ १, ११, ९<sup>o</sup>.  
 प्रवृत्ता ( त-आ ) हुति- -तित्म  
 वौश्रौ १४, २१ : २७; -ती शाश्रौ  
 ६, ९, १६; ९, १९, ४; वौश्रौ १४,  
 ५ : ३७; -तीः आश्रौ ३, १,  
 १३; ५, ३, १२; वौश्रौ ७, ९ :  
 १४; वैताश्रौ १८, ५.  
 १प्र-वृत्त्य काश्रौ ६, ४, ३; भाश्रौ.  
 प्र-त्रियमाण- -णम् वौश्रौ ३, १८ :  
 २; -णयोः भाश्रौ ४, १३, १;  
 -णे वैताश्रौ २, १५<sup>p</sup>.  
 प्र√वृ (आच्छादने) > २प्र-वर- पा ३,  
 ३, ५४.  
 प्रा ( < प्र ) -वरण<sup>q</sup>- -णम् वौश्रौ  
 १७, ३९ : ४<sup>m</sup>; अप १, ४९, ५;  
 अशां १३, ३; आपध.  
 प्रा ( < प्र ) -वार<sup>r</sup>- -रम् पा ३, ३,  
 ५४; आमिष्ट १, ३, १ : ४<sup>m</sup>.

a) पामे. पृ १७१२ j द्र. । b) पामे. वैप १, २२०९ a द्र. । c) = प्रवान-पुष्ट- । भवे कर्मणि च क्त । प्रास. इत्यपि प्रवादः ( तु. आज्यो. ) । d) भाप. । e) पृ १२१६ e द्र. f) विप. ( L प्रहृष्ट- J. पुत्र- ) । g) पामे. वैप १, २२०९ e द्र. । h) पूप. = प्रवर-निगद- ( तु. खदत्तः ) । i) सप्त. वा मलो. कस. वा । j) ष्त इति पाठः ? यनि. शोधः ( तु. P.W. ) । k) पामे. वैप १, २२०९ f द्र. । l) उप. भवे करणे वा क्त । m) परस्परं पामे. । n) उप. करणे क्त ।

प्रा (<प्र) वृत्, ता- -तः काश्रौ २२,  
 ६, ४; आपश्रौ २२, ७, २४;  
 जैश्रौ; -तम् अप ३३, ६, ५;  
 -ता अप्रा ३, ४, १; -ताः या  
 १४, १०<sup>क</sup>; शुप्रा ५, ३७; -ताम्  
 गोय २, १, १८.  
 प्रावृत्-कण्ठ<sup>३</sup> - -ण्ठः वौघ १,  
 ५, १५.  
 प्रा (<प्र) वृत्त्य आपश्रौ ७, २४, ९;  
 हिश्रौ १७, ३, २३; कप्र.  
 प्र√वृह्, वृह् (वधा.), प्रवृहते<sup>४</sup> अप  
 ६३, २, ७.  
 प्रवृहति<sup>५</sup> आपश्रौ १२, ७, १९;  
 माश्रौ; प्र(वृहथः) वृदे ४, ८४<sup>क</sup>;  
 ऋप्रवृहामि<sup>६</sup> वाश्रौ ३, २, ५, ३;  
 चाश्र ३० : २५; ऋप्रवृहन्तु<sup>७</sup>  
 आपश्रौ १२, ८, १; वैश्रौ १५,  
 १० : १; प्रवृहेत् वौश्रौ २३, ५ :  
 ३३.  
 प्रवृहयति काठश्रौ ८८<sup>६</sup>.  
 प्र-वृहण- णे वौश्रौ २३, ५ : ३३.  
 प्र-वृह्य आपश्रौ ७, २०, ४; २३, ७;  
 काठश्रौ.  
 प्र-वृक- प्र√वृज् द्र.  
 प्र√वृज्, प्रवृणक्ति<sup>८</sup> आपश्रौ १५,  
 १२, १०; १२; १६, ९, ४;  
 वौश्रौ; प्रवृञ्जन्ति माश्रौ २, २;  
 १, १४; ४, १, ४, प्रवृञ्चि सु  
 १५, ३; प्रवृञ्ज्यात् काश्रौ १६,  
 ७, ६; २६, ७, ५२; आपश्रौ.  
 प्रवृञ्ज्यते वाश्रुश्रौ ३, ९ : २०;  
 या ५, २८; ८, ९.

ऋप्रवावृजे शुभ्र ३, २०५; या ५,  
 २८<sup>क</sup>.  
 प्र-वर्ग<sup>९</sup> - णे शुभ्र ४, १७४.  
 प्रावर्गिक<sup>१०</sup> - -कम् वौश्रौ २०, २;  
 ४; -कात् वौश्रौ २०, २ : ३.  
 प्र-वर्ग्य<sup>११</sup> - -र्ग्यः शाश्रौ ५, १०, ३५;  
 १४, ४०, १८; वौश्रौ; वायु ७,  
 १७<sup>१</sup>; -र्ग्यम् शाश्रौ ५, १०, ३६;  
 काश्रौ ८, ३, १८<sup>क</sup>; आपश्रौ;  
 वौश्रौ ९, १९ : १५<sup>१</sup>; वौयु ३,  
 ४, ९<sup>१</sup>; मायु १, २३, २१<sup>१</sup>;  
 -र्ग्यस्य वौश्रौ ६, २० : १××;  
 माश्रौ २, २, ५, २८; वैश्रौ १६,  
 ४ : २; -र्ग्यात् वैताश्रौ ४, २३;  
 -र्ग्याय आपश्रौ १५, २१, १५;  
 वौश्रौ ९, १९ : ६<sup>१</sup>; २० : २६;  
 भाश्रौ; वौयु ३, ४, ३<sup>१</sup>; -र्ग्ये  
 आपश्रौ १५, २, ९; १३; १६,  
 २४, १५; वौश्रौ; -र्ग्येण आश्रौ  
 ४, ६, १; काश्रौ; आपश्रौ १५, ६,  
 १<sup>क</sup>; वौश्रौ ९, ६ : १<sup>क</sup>; १२ :  
 ९; २३; १७ : ३; भाश्रौ ११,  
 ६, १<sup>क</sup>; वैश्रौ १३, ७ : २६<sup>क</sup>;  
 हिश्रौ २४, २, ७<sup>क</sup>; जैश्रौ २३;  
 ५<sup>क</sup>; -र्ग्येषु हिश्रौ १७, ४, १६;  
 वृदे ५, ३५.  
 प्रवर्ग्य-कल्प- -ल्पम् माश्रौ ४,  
 १, १; -ल्पे मायु १, ४, १४.  
 प्रवर्ग्य-चरण- -णम् काश्रौ २६,  
 २, २.  
 प्रवर्ग्य-देवता- -ताः वौश्रौ ९,  
 १९ : १४; २१; ३०; ४०××;

वौयु; -ताभ्यः वौश्रौ ९, १९ :  
 ५××; वौयु.  
 प्रवर्ग्य-पशु-कर्मन्- -मणि  
 जैश्रौका ३४.  
 प्रवर्ग्य-पात्र- -त्राणि आपश्रौ १२,  
 ४, ५; वैश्रौ १३, ६ : ११;  
 -त्रेभ्यः आपश्रौ १५, १, १२;  
 भाश्रौ ११, १, १७; वैश्रौ १३, १ :  
 १८; हिश्रौ २४, १, ८.  
 प्रवर्ग्य-प्रायश्चित्त- -त्तानि वैश्रौ  
 १३, १४ : ९.  
 प्रवर्ग्य-वत् वौश्रौ १९, १० : १४.  
 प्रवर्ग्य-वत्- -वति काठश्रौ  
 १०३; वौश्रौ ९, १८ : १; वैश्रौ;  
 -वान् आश्रौ ५, १३, १; शाश्रौ.  
 प्रवर्ग्य-वती- -त्यः माश्रौ ६,  
 १, ५, २६.  
 प्रवर्ग्य-संभरण- -णे वैश्रौ १८,  
 १ : १५.  
 प्रवर्ग्य-संभार- -रान् वैश्रौ १३,  
 ८ : ३.  
 प्रवर्ग्य-सामन्- -न्तः द्राश्रौ ६,  
 ४, २; लाश्रौ २, १२, २.  
 प्रवर्ग्या (स्य-ञ्)नुवाक्य<sup>१२</sup> - -न्येन  
 वाश्रौ २, २, ३, २५.  
 प्रवर्ग्या (स्य-ञ्)र्ध- -र्धम् जैश्रौका  
 ४६; -र्धान् वैश्रौ १३, ७ : ८.  
 प्रवर्ग्या (स्य-ञ्)वर्त-भूपण<sup>१३</sup> -  
 -णः विप १, ८.  
 प्रवर्ग्यो (स्य-ञ्)सादन<sup>१४</sup> - -नम्  
 काश्रौ १८, ३, ९; २६, ७, १.  
 प्रवर्ग्यो (स्य-ञ्)दसन- -नानि

a) वस. । b) घा. वृद्धौ वृत्तिः । c) घा. हिसायां वृत्तिः । d) पाभे. वैप १, २२, १० p द्र. ।  
 e) सप्र. काश्रौ ७, ९, २३ उद्वृहति इति पाभे. । f) वैप १ द्र. । g) = प्र-वर्ग्य- । उप. कर्मणि प्र. ।  
 h) = पयस्- । तात्रभविकप् ठक् प्र. । i) = कर्म-विशेष- (आश्रौ ४, ६, १ प्रमृ.) । उप. अधिकरणे प्र. । सिष्टं वैप  
 १ द्र. । j) सप्र. ण्यः <> ण्यम् इति पाभे. । k) = (उपचारात्) पात्र- (तु. विद्याधरः) । l) = (उपचारात्)  
 देवता- । m) पाभे. वैप १, २२, ०९ j द्र. । n) वस. । o) विप. (विष्णु-) । पस. > वस. । श्रावर्त- = मला-  
 (तु. रुप्यपरिदत्तः) । p) = कर्म-विशेष- । वस. पूष. = पात्र- ।

जैश्रीका ३४.

प्रवर्ग्यो(र्ग्य-उ)द्वासन- ने  
जैश्रीका ६८.प्रवर्ग्यो(र्ग्य-उ)पसद्- पाग २,  
४, १४; -सदो: द्राश्री १४, ३, ९;  
लाश्री ५, ७, ८; -सदो: वाश्री  
२, २, ५, १७; -सदो काश्री ८,  
२, १४; आपश्री ११, ४, ११××;  
वौश्री; -सद्व्याम् आपश्री ११,  
४, १; १५, १२, ४; वौश्री ६, २, १:  
२, ४××; भाश्री.

प्रवर्ग्योपसच्-चिति-होम-

-म: हिश्री १२, १, १.

प्र-वृक्त- -क्ते वौश्री २९, ११ : १८.

प्र-वृज्य आपश्री ९, २०, १; १५,  
१२, १३××; वौश्री.प्र-वृज्य- -ज्य: आपश्री १५, १८,  
१३-१५; भाश्री ११, १९, २, ६.प्र-वृज्यमान, ना- -नस्य आपश्री ९,  
१२, ९; -नायाम् हिश्री १०, ८,  
१२.प्र-वृजन- -नम् आपश्री १५, १८,  
११; भाश्री ११, १९, १; -नानि  
भाश्री ११, १९, ७; -ने वौश्री  
१७, २८ : ४; २२, २ : १३;  
-नै: आपश्री १५, १८, १६;  
भाश्री ११, १९, ७.प्रवृजनीय- -यम् काश्री २६,  
७, १४; वौश्री ९, ५ : १६; वैश्री  
१३, ७ : २४; -ये वौश्री ९, ५ :  
२२××; वैश्री १३, ९ : ७; -यो  
काश्री २६, ७, ४१.

प्रवृजनीयो(य-उ)द्वासनीय-

-यो वैश्री १३, १५ : ९.

प्रवृत्<sup>d</sup> वौश्री ३, २८ : १८.प्रवृत्, प्रवर्तते लाश्री १०, ३, १३;  
निसू ९, १० : ११; वौपि; प्रवर्तते  
आश्री ७, १, ११; प्रवर्तन्ते याशि  
२, ७८; प्रवर्तते वैश्री ६, १३ : ५;  
द्राग ४, २, ७; अप; प्रवर्तरेन् गोग  
४, ७, ३; मीसू ६, २, २३; २४.  
प्रवर्तयति वौश्री २, १७: ४७××;  
माश्री; प्रवर्तयन्ति आश्री ४, ९,  
१; आपश्री ११, ६, ११; वौश्री;  
प्रवर्तयामि आपश्री १२, १६, ७;  
ऋप्रवर्तय ऋश्री २, ७, १०४; वृदे  
६, ३१; अश्री ८, ४; प्रवर्तयेत्  
काश्री २५, १४, ८; आपश्री १२,  
१६, ७; वौश्री; प्रवर्तयेयु: वौश्री  
१४, ३ : २; वैश्री १४, ५ : १८;  
तैप्रा ४, ५२ः.प्र-वर्त- -र्तम् आपश्री १९, २३,  
११; १३; २४, २; वौश्री १३,  
३१ : ६××; आश्री १, ३, ४ :  
१८; -तौ वौश्री १७, ३९ : ५;  
४१ : १२; जैश्री.

प्र-वर्तक- -क: शंघ ३७८.

प्र-वर्तन- -ने वौघ २, १, ७.

प्र-वर्तम् आपश्री ११, ८, २; हिश्री  
७, ५, २७; ७, २१.प्र-वर्तमान- -नम् वौश्री १७, ४३ :  
३; आश्री १, ४, ११; शंघ ८३.प्र-वर्तयत्- -यन् वैघ २, ५, ५; वृदे  
२, ६१.प्रवर्तयन्ती- -न्तीम् गोग २,  
१, १९.प्र-वर्तित- -त: मीसू १०, ३, ४;  
-तम् अप ३७, १९, २.प्र-वर्त्यमान- -नम् वाश्री ३, ४, १,  
५०; -ऋनाभ्याम्<sup>०</sup> शाश्री ५, १३,  
२; काश्री ८, ४, १; आपश्री ११,  
६, १०; वौश्री ६, २५ : १;  
माश्री २, २, १६; वैश्री १४,  
५ : १६; हिश्री ७, ५, ५; -ने  
द्राश्री १४, ४, १५; लाश्री ५,  
८, १४; वैताश्री १५, ११.प्र-वृत्<sup>d</sup>- -वृत्, -वृत्तम्, -वृते  
वैताश्री २६, ८ः.प्र-वृत्त, ता- -त्त: वौश्री ९, १७ :  
६; १४, ७ : ९××; शंघ ३७७ :  
३; वौघ ४, ७, १; -त्तम् काश्री  
१, ४, १४; वौश्री; -त्तस्य वैश्री  
१४, १६ : ५; हिश्री; -त्ता  
अप्राय ६, ३; विघ २३, ६१;  
-त्ता: अप्राय ६, २; -त्तानाम्  
अप ६४, ४, ७; -त्तानि आपश्री २,  
२२, ३; २३, २; हिघ २, ५,  
१३३; १५७; -त्तायाम् वौश्री  
२९, ११ : ९; जैश्रीका ६४; -त्त  
आश्री १२, ४, २२; शाश्री; या  
१, ९; -त्तेषु शाश्री १३, ३, १;  
-त्तो शाश्री १६, १८, ८.प्रवृत्त-त्व- -त्वात् मीसू ३, ५,  
४७; ८, १, ३; ४, १८; ९, ४, ३९.प्रवृत्त-वरण- -णात् मीसू १२,  
१, ३५.प्रवृत्त-शि(खा >)ख- -खा:  
आश्री ४, २, ९<sup>d</sup>.

प्रवृत्ता(त्त-अ)प्र- -प्रात् वाघ

a) मलो. कस. &gt; सस. । b) पृ १७२९ e द. । c) पाभे. वैप २, ३खं. प्रवर्त्यमानाभ्याम् टि. द. ।

d) वैप १ द. । e) प्रवृत्तित्वात् इति जीसं. प्रवृत्. । f) सस. । g) विप. (अमात्य-) । वस. पूष. = विलस्त- ।  
h) सप्र. आश्री १०, ८, ८ इतरान्. प्रवृत्त्य इति, वौपि १, ३ : १६; २३ प्रकीर्णकेशाः इति, हिपि १ : १५ केशान्  
प्रकीर्य इति, हिपि २ : १३ सव्यान् प्रस्रस्य इति, गौपि १, ४० सव्यतः केशान् प्रकीर्य इति च पाभे. । i) विप. ।  
वस. पूष. = छिन्न- ।

१५, १२.  
 प्रवृत्ता(त-अ)तिपत्ति- -त्तौ  
 अप्राय ४, ४.  
 प्रवृत्ता(त-अ)शिन्<sup>a</sup>- -शिनः  
 बौध ३, ३, ९; ११.  
 प्र-वृत्ति- -त्तयः कौट १, ३, १०;  
 शांठ १, ८, ५; -त्तिः शांश्रौ ३,  
 १९, ७; कौसू; वैव १, ९, १२;  
 १३; मीसू ६, ३, १; ७, १, ७;  
 -त्तिभिः या २, २१; १३, १३;  
 -त्तः काश्रौ १, २, ११; मीसू ९,  
 ४, ५४; -त्तौ माश्रौ १, ३, ५,  
 २९; पावा; मीसू १०, ८, ६०<sup>b</sup>;  
 -त्या मीसू ५, १, ८; ४, २; ६, ५,  
 ११; ७, ४, १९.  
 प्रवृत्ति-कारण- -णम् आपध १,  
 ४, ९; हिघ १, १, १२८.  
 प्रवृत्ति-तस्<sup>c</sup> (: ) पात्रा ३, १, ७.  
 प्रवृत्ति-लक्षण<sup>c</sup>- -णः हिश्रौ ३,  
 १, २४.  
 प्रवृत्ति-लिङ्ग<sup>d</sup>- -ङ्गेन मीसू ८,  
 ३, ४.  
 प्र-वृत्त्य<sup>e</sup> आश्रौ १०, ८, ८<sup>f</sup>; कौसू  
 २४, २१<sup>h</sup>.  
 प्र-वृत्तिक<sup>c</sup>- -कानाम् सुध ५.  
 प्र√वृष्, प्रवर्धते अप १, ९, ५; ७;  
 प्रवर्धन्ते वाधूश्रौ ४, १०३<sup>g</sup> :  
 १०; अप ६६, ३, ४; प्रावर्धन्त  
 वाधूश्रौ ४, १०३<sup>g</sup> : ९.  
 प्रवर्त्यति हिश्रौ १३, ३, ३<sup>h</sup>.  
 प्रवर्धयते या ११, ६; ३६; प्रव-  
 र्धयति आपश्रौ १६, १७, १२;  
 १८, १२, १; वैश्रौ; प्रवर्धयन्ति  
 हिश्रौ १३, ५, १; प्रवर्धयतु या

१०, ३५; प्रवर्धयन्तु या १२,  
 ३९; प्रवर्धय या ४, ७; १०, ४०;  
 ११, ३०.  
 प्र-वर्धन- -ने अप ७२, ३, १०.  
 प्र-वर्धमान- -नः अप १८<sup>g</sup>, १, १.  
 प्र-वृद्ध, द्वा- पाग ६, २, १४७; -द्वाः  
 अप १, ६, ९; -द्वाम् या ११,  
 ११; -द्वाः अप ६५, १, ९.  
 प्रवृद्ध-चेतस्<sup>c</sup>- -तसः या ९,  
 २०; -ताः या ८, ५.  
 प्रवृद्ध-प(द>)दा<sup>c</sup>- -दा निस्  
 १, ४ : ८.  
 प्रवृद्ध-स्कन्धशाखा(खा-अ)-  
 न्वित-पावनि(?)तलरूह-  
 -हान् अप ६५, १, ९.  
 प्र-वृद्धि- -द्धये अप १, ४०, ३; -द्धौ  
 काश्रौ ३, २, २२; ५, १५; ८, ३, ४.  
 प्र√वृश्च् (<वृश्च्) प्रवृश्चति  
 आपश्रौ १४, १४, १; वौश्रौ १४,  
 १८ : १४; प्रवृश्च अत्र १२, ५  
 (७)†; प्रवृश्चेयुः वौश्रौ १४,  
 २८ : ४; ५.  
 प्र√वृष्, प्रवर्षति अप ६२, ४, ३; ६५,  
 १, ८××; प्र...वर्षति कौसू  
 १२७, ११; प्रवर्षेयुः अप ५२, १,  
 १८.  
 प्र-वर्षण- -णे अप ७१, १, ५.  
 प्र-वर्षत्- -र्षति विघ ६३, ४३.  
 प्रा( <प्र)-वृष्<sup>g</sup>- पाउवृ २, ५७;  
 -वृट् आपश्रौ ८, ४, १३†;  
 -वृषा आश्रौ ४, १२, २†;  
 -वृषि काश्रौ ६, १, १; आपश्रौ.  
 प्रावृट्-काल- -ले विघ ७८, ५२.  
 प्रावृट्-शरद्- -रदौ वैश्रौ १,

१९ : १३.  
 प्रावृषिक- पा ४, ३, २६.  
 प्रावृषि-ज- पा ६, ३, १५.  
 प्रावृषीण<sup>h</sup>- -णे वाधूश्रौ ३, ६९ :  
 ८.  
 प्रावृषेण्य- पा ४, ३, १७.  
 प्र√वृह् प्र√वृह् द.  
 प्र√वे, प्रवयति काश्रौ १५, ५, ४;  
 आपश्रौ २१, १७, ९; वौश्रौ;  
 प्रवयन्ति शांश्रौ १७, ३, ७.  
 प्रो(प्र-उ)त- -तम् बौध २, ७, १५.  
 प्रो(प्र-उ)त्य वौश्रौ १७, ४१ : ६;  
 १२; आग्निट.  
 प्र-वेक- प्र√विच् द.  
 प्रिवेणतः<sup>i</sup> वौश्रौ २६, ५ : ३०.  
 प्र√वेप्, प्र-वेपिन्- प्र√विप् द.  
 प्र-वेश- , वेशक- प्रवृ. प्र√विश् द.  
 प्र√वेष्ट, प्रवेष्टयते हिश्रौ १०, २, ९;  
 प्रवेष्टयति वौश्रौ ४, ४ : ३९××;  
 भाश्रौ; प्रवेष्टयन्ति वौश्रौ ११,  
 ६ : २७; १२, ७ : ३७; प्रवेष्ट-  
 येत् आपश्रौ ७, ११; ८; वौश्रौ  
 १७, १३ : १३; हिश्रौ ४, २, ७०.  
 प्र-वेष्ट्य आपश्रौ ७, ११, ९; वौश्रौ  
 १, ३ : ३; हिश्रौ.  
 प्र-वेष्टव्य- प्र√विश् द.  
 प्र√व्यश् > प्र-व्यथित- -तः वृदे ५,  
 १८.  
 प्र√व्यष्, प्र-व्याध- प्र√विष् द.  
 प्र√व्ये > प्र-वीय आपश्रौ ७, ११, ९.  
 प्र√वृज्, प्रवृजते काठश्रौ ३४; प्रवृजति  
 आपश्रौ २४, १२, १०; वाधूश्रौ  
 २, ६ : ४; वैश्रौ; प्रवृजामि वाधूश्रौ  
 ३, ५ : ३; प्रवृजेत् आश्रौ २, ५,

a) = वानप्रस्थविशेष- । b) ऋतौ इति जीसं. । c) वस. । d) प्रवृत्त इति आन. ।  
 e) धा. विर्लसने वृत्तिः । f) प्रवृत्त्य इति आन. । g) पाभे. पृ १७३३ h द. । h) प्रवृत्त्य इति संस्कृतः टि. ।  
 i) प्रवृत्त्यति इति पाठः? यनि. शोधः ( तु. सप्र. आपश्रौ १८, १२, १ प्रवर्धयति इति पाभे. ) । j) वैप १ द. ।  
 k) विप. (आध्वत्य-). ख > ईनः प्र. उरसं. (पा ४, ३, १७) । l) पाठः? प्रवृणतः (उभयोः पार्वयोः) इति भवत्वामी ।

४; शांश्रौ १६, १६, १; वौश्रौ;  
प्रवजेरन् वाध १९, ३४; प्रवजेयुः  
लाश्रौ ८, ८, ६; भाग्य २, २७ : १.  
प्रववाज वौश्रौ १८, ४४ : २२;  
४७ : १६.

प्र०...वाजेयुः<sup>a</sup> वाधूश्रौ ३, १०६:  
७.

प्र-न्नजत्- -जत्सु शांश्रौ ५, १०, १४;  
-जन् वाधूश्रौ ४, ८९ : ३३;  
हिद्य १, १६, १७<sup>b</sup>.

प्र-न्नजन->न-मन्त्र- -न्त्रः वाश्रौ  
३, २, ६, ४५.

प्र-न्नजित,ता- पाग २, १, ७०; -त्तः  
आपध १, १८, ३१<sup>c</sup>; -त्स्य  
वौश्रौ २०, २३:६; -तायाः विध  
३६, ७; -तायाम् वौश्रौ १८,  
४५ : १३; ३२; -ते वाध १९,  
३७; विध ६, २७; गौध १८, १७  
प्रवजिता-गमन- -ने शंघ ३७७:  
१९.

प्र-न्नजिष्यत्- -व्यतः लाश्रौ १०,  
१९, ११.

प्र-न्नज्य विध ९६, १.

प्र-न्नज<sup>d</sup>- -जम् वौश्रौ १८, ४४:  
२३.

प्र-न्नियमाण- प्र०वृ (वरणे) द्र.

प्र०वृ, वृ, प्र०...वृलीनात् वाधूश्रौ  
४, ३० : २<sup>e</sup>; ४; प्रवृलीनीयात्  
आपश्रौ १३, ७, १२.

प्र०शंस, प्र०शंसति शांश्रौ १२,  
१६, १; काश्रौ १३, ३, ७; आपश्रौ;  
या ९, ८; प्र०...शंसति तैप्रा ७,  
१६<sup>f</sup>; प्र०शंसन्ति वौश्रौ २, १४:  
९; १५, ४ : ६; वैश्रौ; प्र०...

शंसामि या ५, ९<sup>f</sup>; प्र०(शंसामि)  
आश्रौ ३, १३, १४××; शांश्रौ;  
प्र०शंस > सा ऋप्रा ७, ३१;  
प्र०शंसियुः शंघ २१८.

प्र०शंस ऋध २, ५, ६१; प्र०-  
शंसियः क्षुस् १, ३ : १५; या  
१४, २८<sup>g</sup>; ऋप्रा १८, २; प्र-  
शंसीः या १४, २८; प्र०...  
शंसियम् आश्रौ ६, २, ६; आपश्रौ  
१४, २, १३; वौश्रौ १७, ३ : ४;  
हिश्रौ ९, ७, २१; प्र०(शंसियम्)  
आश्रौ ६, ४, १०; शांश्रौ.

प्रशस्यते कप्र १, ६, १२××; अप;  
प्र०प्र (शस्यते) ऋध २, १,  
१३८; वृदे ४, ७; प्रशस्यन्ते या  
९, ९.

प्र-शंसत्- -सन् आपध २, २४, ९;  
वौध २, ६; ३६<sup>h</sup>; हिध २, ५,  
१७३.

प्र-शंसा- -सा आपश्रौ २४, १, ३३<sup>i</sup>;  
वौश्रौ २, १५ : ६××; हिश्रौ;  
-साम् या ४, २४; ९, १०;  
-सायाम् पा ३, २, १३३; ५, ३,  
६६; ४, ४०; ६, २, ६३; ७, १,  
६६.

प्रशंसा-कीर्तन-गान-प्रेषण-  
वृत्ति<sup>j</sup>- -त्तिः वैध ३, १३,  
११.

प्रशंसा-नामन्- -म या ५, ८.  
प्रशंसा(सा-अ)र्थ- -र्थम् मीत्  
१०, ८, ६८.

प्रशंसा-वचन- -नैः पा २, १,  
६६.

प्र-शंस्य वैद्य ४, ११ : ५.

प्र-शस्त, स्ता- -स्त वौश्रौ ९, ७ :

२<sup>k</sup>; -स्तः वौश्रौ २३, ४ : २२;

अप ७०<sup>l</sup>, २, ५; हिध २, ५,

७५<sup>m</sup>; -स्तम् आपश्रौ १४, १६,

१; १९, ३, २; वौश्रौ; हिध १, ८,

३२<sup>n</sup>; या ५, १०<sup>o</sup>; -स्ता अप

२६, ४, १; ३०, १, ४;

आज्यो ६, ४; -स्ताः वौश्रौप्र

१४, १; आग्य २, १०, ८<sup>p</sup>;

भाग्य; -स्तानाम् वाध १४,

१५<sup>q</sup>; गौध १७, १; -स्तानि

अप १, ३१, ३; विध ७९,

२२; गौध २७, १२; -स्ताम्

ऋप्रा १५, १; -?शास्तः<sup>r</sup> आपध

२, १९, ३<sup>s</sup>; -?शास्तम्<sup>t</sup> आपध

१, ३१, १२<sup>u</sup>.

प्रशस्त-मङ्गल्य-देवायतन-चतुष्प-

था(थ-आ)दि<sup>v</sup>- -दीन् गौध

९, ६६.

प्रशस्त-लक्षण<sup>w</sup>- -गम् अप १,

४२, ३.

प्रशस्त-स्वम्<sup>x</sup>-ता- -ताम् अप

६८, ३, ८.

प्रशस्तो(स्त-उ)र्वी-समुद्भव<sup>y</sup>-

-वः कप्र १, ७, १.

प्र०शस्ति- -स्तयः आपश्रौ १४,

३३, ६<sup>z</sup>; माश्रौ ६, २, २, २१<sup>aa</sup>;

वाश्रौ २, २, १<sup>ab</sup>; हिश्रौ १५,

८, ४<sup>ac</sup>; -स्तिभिः या १०,

५<sup>ad</sup>; -स्तिषु वौश्रौ ११, ६ :

२०.

प्रशस्ति-कृत्<sup>ae</sup>- -कृत् उस् ८,

३०<sup>af</sup>.

प्र-शस्य वृदे ४, ६०.

a) पाठः ? च्रजेयुः इति शोधः विमृश्यः । b) पृ २८७ g द्र. । c) पामे. पृ ४०९ f द्र. ।

d) न. नाप. (प्रदेश-). उप. अधिकरणे घल् प्र. । e) द्रस. > वस. । f) सप्र. शस्तः <> शस्तः? इति पामे. ।

g) परस्परं पामे. । h) सादृश्यात् वावि. इति WAG (१, ३९) । i) मङ्गल्य- = दधिघृतादि- । j) वस. ।

k) कस. > वस. । l) वैप. १ द्र. ।

प्रशस्य- -स्यः वृद्धे ३, ३; या १, १६; ८, ७; ११, ३९; १३, १२; -स्यम् वीध २, ८, १; -स्यस्य अप ४८, ६२; निघ ३, ८; पा ५, ३, ६; -स्ये अप ४८, ६०; पा ४, ४, १२२.  
 प्रशस्यन्तम्- -सः वाध १, ३. प्रशस्यन्तम्- -मानि निघ ३, ८; या ३, १३.  
 प्रशसु, प्रशासयति माश्रौ १, ६, ९. प्रशसवन्- पाठ ४, ११७.  
 प्रशास्य आश्रौ १, ६, ७; हिश्रौ १, ३, १.  
 प्रशम्, प्रशाम्यति अप ९, ३, ५; ७०, ९, ६; प्रशाम्यन्ति आज्यो १४, ९.  
 प्रशामयन्ति आज्यो १४, ८; प्रशामय अप ३६, १, ६; ११; प्रशामयेत् विध ३, ६८.  
 प्रशामयत् वृद्धे ४, ५३.  
 प्रशाम- -मम् अप ३२, ३, ५.  
 प्रशान् पाग १, १, ३७.  
 प्रशान्त- -न्तः जैगृ १, १२ : ६८; शैशि १५३; याशि १, २३; नाशि १, ६, १२; -न्तम् वाध ६, ३०.  
 प्रशान्ता(न्त-आ)त्मन्<sup>b</sup>- -त्मा विध ९७, १.  
 प्रशान्ति- -न्तिः अप ७०<sup>c</sup>, ११, २३.  
 प्रशसु (हिंसायाम्) > प्रशसु<sup>c</sup>-

-शसा आश्रौ ३, ३, १; शाश्रौ ५, १७, ५; माश्रौ ५, २, ९, ४.  
 २प्रशस्य भाग २, १५ : ३.  
 प्रशस्त-, प्रशस्ति-, १प्रशस्य प्रशु. प्रशंसु द्र.  
 प्रशास्य प्रशसु द्र.  
 प्रशास, प्रशासति या ३, ४; प्रशासति अप ५०, ४, ७; प्रशास्ति ऋत्रा १४, ३६; ४७.  
 प्रशासन- -नम् या ५, ११.  
 प्रशासु<sup>c</sup>- पाठभो २, १, १४५; पा ६, ४, ११; पाग ५, १, १२९<sup>d</sup>; -प्रशस्तः आश्रौ ५, २, ११; ११, १; शाश्रौ; -स्ता आश्रौ ५, ५, १७x; शाश्रौ<sup>e</sup> १, ४, ५; ७, १४, ९; आश्रौ १६, १५, ७; वीश्रौ; अप्राय ६, २१<sup>f</sup>; -स्तारम् आश्रौ ३, १, १६; वीश्रौ; -स्तारौ काश्रौ ९, ८, ९; आश्रौ; -स्तुः काश्रौ ११, १, २४; आपश्रौ; -स्ता द्राश्रौ ५, २, २०; लाश्रौ २, ६, १३; -स्त्रे काश्रौ ९, १४, ९; वीश्रौ ८, ६ : १०; वैश्रौ १५, ३० : ११; -प्रशस्त्रोः आश्रौ ३, १, १६; १७; शाश्रौ.  
 प्रशासत्र- पा ५, १, १२९; -प्रशासु<sup>c</sup> काश्रौ ९, ८, ९; काठश्रौ १३३.  
 प्रशासु-घिण्य- -ण्यम् काश्रौ ११, १, २७.  
 प्रशासत्र<sup>b</sup>- -स्तात् आपश्रौ ७,

१४, ५; ११, १९, ८; काठश्रौ १३०; वीश्रौ ४, ६ : ९; ७, ९ : ७; माश्रौ ७, ११, ५; माश्रौ २, ३, ६, १७; वैश्रौ १०, १० : १९; हिश्रौ ७, ८, ४२.  
 प्रशासु(त्तु-आ)दि- -दीन् काश्रौ ९, ११, ७; -दीनाम् वैताश्रौ २२, ६.  
 प्रशास्त्रीय- -यम् आपश्रौ ११, १४, ४; हिश्रौ ८, १, ७३; ९, १, २१; १०, ८, ४९; -ये हिश्रौ १२, ६, २६.  
 प्रशास्य वृद्धे ४, ९५.  
 प्रशसिष्टि- -ष्टौ आश्रौ २, ११, ८<sup>g</sup>.  
 प्रशसिस्- -शिपम् आपश्रौ २, २०, ६<sup>h</sup>; वीश्रौ २४, २९ : १८; माश्रौ २, १९, १; हिश्रौ २, ५, ४७; -शिषा आश्रौ ३, १, १६; १७; शाश्रौ; वैताश्रौ ३, ९<sup>i</sup>; सु २१, २; कौसु २, २१<sup>j</sup>x.  
 प्रशिष्य, प्रशिष्यात् आश्रौ १२, ९, ९.  
 प्रशस्य प्रशसु द्र.  
 प्रशुकीय<sup>l</sup>- -यम् शाश्रौ १०, १३, १८.  
 प्रशुचु (दीप्तौ), प्रशुचोश्च आपर्ष १, ९, ३<sup>m</sup>.  
 प्रशुम्, प्रशुमन्ते आश्रौ ७, ७, ४; प्रशुश्रौ ११, ७, १२; १२, १५; ऋत्र ३, १८<sup>n</sup>; प्रशुमन्ते ऋत्र २, १, ८५; वृद्धे ३, १२१.  
 प्रशु (< आ ) > प्रशु- -तम् कौसु ३०, १५.

a) मकारस्य नकारादेशः (पा ८, २, ६४) । b) वस । c) वैप १ द्र । d) प्रश इति भासडा ? (तु. पाका. प्रशु) । e) ंस्त आ इति पाठे ह्रस्वः प्रकृतिभावश्च उरसं. (पा ६, १, १२७ [तु. C.] ) । f) प्रश इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सपा. ऋ २, ५, ४) । g) पाठः ? प्रशाखात् इति शोधः (तु. सपा. खि ५, ७, ५, ६ आपश्रौ ७, १४, ५ प्रशु. ) । h) कर्मणि लच् प्र. उरसं. (पा ५, १, १२९ [तु. वैप १, १८४८ e.] ) । i) प्रविष्टौ इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आन., सपा. तैत्रा २, ४, ६, १२ प्रशिष्टिम् इति पाठे.) । j) प्रा इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. तैत्रा ३, ७, ५, ११ वीश्रौ. प्रशु. BC. च) । k) पाठे. वैप २, ३८. प्रशिषा गोत्रा २, १, २ टि. द्र । l) =सुक्त- । <प्र शुक्रा (ऋ ७, ३४, १) । m) =प्रसविषाष्ट इति हरदत्तः ( भू [LXIX.] ) ?



प्र√शृ,शृ (हिंसायाम्), प्र...  
 शृणामि अत्र २, ३२; प्र...  
 शृणीहि अत्र १०, ३.  
 प्र-शीर्यं काश्रौ ३, ४, ४.  
 प्र√शृ (= शृ), प्रप्र...शृण्वे<sup>a</sup> आश्रौ  
 ४, ५, ३; वौश्रौ १०, १७ : १२;  
 प्रप्र(शृण्वे)<sup>a</sup> वौश्रौ १२, ३५ : ३;  
 वाश्रौ २, १, ३, २४; वैश्रौ.  
 प्र-शृत- प्र√शृ (<श्रा) द्र.  
 प्र√शृचुत्, प्रश्रोतन्ति वाधुश्रौ ४,  
 ७४ : ५; प्राश्चोत् वाधुश्रौ ४,  
 ९४ : २; ९४<sup>२</sup> : १.  
 प्रश्रोतयति वौश्रौ २, ९ : ६;  
 ९, २ : २९<sup>२</sup> × ×; वैश्रौ १३,  
 १३ : १०.  
 प्र-श्रोत्य आपश्रौ २, १९, ७; वैश्रौ  
 १३, १३ : ८.  
 प्रश्न- प्रशृ. √पृच्छ् द्र.  
 प्र√श्रि, प्रश्रयते हिष १, ५, १०३;  
 प्रश्रयति काश्रौसं २८ : ४.  
 प्र-श्रित- -तः वाधुश्रौ ४, २६<sup>२</sup> : ६.  
 प्र-श्रित्य वौश्रौ ७, ५ : ९; ८, १ : ६.  
 प्र√श्रिल्प > प्र-श्रिल्प- पाग ६, २,  
 १४६; -ष्टः<sup>b</sup> ऋप्रा ३, ३४;  
 शुप्रा १, ११६; तैप्रा २०, ५;  
 शैशि २३६; याशि १, ७६; ८१;  
 कौशि ८; १६; नाशि १, ८, १०;  
 २, १, ९; -शैष्टम्- शाश्रौ १२,  
 १३, ५<sup>b</sup>; निस् १, ७ : ३२<sup>c</sup>;  
 ऋप्रा २, ६<sup>d</sup>; ३, १८<sup>b</sup>; नाशि  
 २, १, ६<sup>b</sup>; -ष्टस्य कौशि १९<sup>b</sup>;  
 -ष्टाः ऋप्रा २, २०<sup>c</sup>; -ष्टात्  
 ऋप्रा १३, २६<sup>c</sup>; -ष्टेषु ऋप्रा  
 ३, १४<sup>c</sup>.

प्राश्रिल्प<sup>e</sup> - -ष्टः शौच ३,  
 ५६.  
 प्राश्रिल्प-निर्देश- -शात् पावा २,  
 ४, ८५.  
 प्राश्रिल्प-प्रातिहत- -तयोः तैप्रा  
 २०, ११.  
 प्र-श्लेष<sup>f</sup> - -वः ऋप्रा १०, २०; -वे  
 ऋप्रा ३, १३; शुप्रा ५, ३३.  
 प्रष्टव्य- √पृच्छ् द्र.  
 प्रष्टि<sup>g</sup> - -ष्टिम् शाश्रौ १२, १६, १<sup>h</sup>;  
 वौश्रौ ११, ६ : २५ × ×; -ष्टी  
 आपश्रौ २०, १६, २; वौश्रौ २०,  
 २० : १६<sup>h</sup>; द्राश्रौ ५, ३, २६;  
 १०, ४, १४<sup>i</sup>; लाश्रौ २, ७, २३; ३,  
 १२, १४<sup>i</sup>; -ष्टीः वौश्रौ २०,  
 १३ : १७<sup>h</sup>.  
 प्रष्टि-वाहिन्<sup>f</sup> - -हिनम् आपश्रौ  
 १८, ३, ३; १७, १; वौश्रौ; -ही  
 आपश्रौ १८, ९, १३; वौश्रौ १८,  
 २० : ७; १९; हिश्रौ १३, ३,  
 ३६.  
 प्रष्टय(ष्टि-अ)न्तर- -रयोः द्राश्रौ  
 ३, ४, ७.  
 प्र-ष्ट प्र√स्था द्र.  
 प्रष्टीला<sup>f</sup> - -लाम् वाधुश्रौ ३, १०३ : १; २  
 प्र√ष्टीच्, प्रष्टीवन्ति आश्रौ ६, १३,  
 १०.  
 √प्रस् पाधा. भ्वा. आत्म. विस्तारे.  
 प्र√सच् प्र√सह् द्र.  
 प्र-सं√ख्या > प्रसं-ख्यान्- -नात्  
 आपश्रौ २४, २, ३७; मीस् ३, ४,  
 ७ × ×.  
 प्रसं-ख्याय आश्रौ ९, १, ९; ३, १९;  
 हिश्रौ ७, २, ६२; आगृ.

प्र√सच्, प्र...सक्व > ऋप्रा  
 ४, ६४; ७, ३३.  
 प्र√सज्, ज्ज्, प्रसजति वौश्रौ ११,  
 ३ : ३४; प्रसजेत् लाश्रौ १०, ४, ३.  
 प्रसज्यते पावा १, १, १९; २, ९;  
 प्रसज्येत निस् ६, ९ : २०; अप  
 ४४, २, २.  
 प्र-सक्त- -क्तम् वैश्रौ १४, ५ : १०.  
 प्रसक्ता (क्त-अ)दर्शन- -नस्य  
 पावा १, १, ६०.  
 प्र-सङ्ग- -ङ्गः काश्रौ १, ४, ८; पावा  
 १, २, २२ × ×; मीस्; -ङ्गात्  
 आश्रौ १, १, २२; काश्रौ; -ङ्गे  
 वौश्रौ २९, ८ : १०; पावा १,  
 १, ५१; -ङ्गेन वौश्रौ २७, ११ :  
 १३; १६; अप; -ङ्गौ पावा १,  
 ४, २.  
 प्रासङ्गिक- -कम् आपश्रौ  
 १२, २५, १४; ऋप्रा १, ५, ११;  
 वाध १९, २९; मीस् ५, १, २८;  
 -के मीस् ९, ४, २६.  
 प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा ४, १, १५;  
 ४ × × ×; -ङ्गे पावा ४, १, ८५.  
 प्रसङ्ग- (ज >) जा- -जा वृदे ३,  
 २८.  
 प्रसङ्ग-तस्(ः) वृदे ५, १७१.  
 प्रसङ्ग-परिकीर्तन- -नात् वृदे  
 १, २२.  
 प्रसङ्ग-सामर्थ्य- -र्थ्यात् पावा  
 १, १, ४४.  
 प्र-सज्य > ज्य-प्रतिषेध- -धात्  
 पावा १, १, ४४; २, १; -धे पावा  
 ७, ३, ८५.  
 प्रा-सङ्ग<sup>k</sup> - ऋत् ५, २, ८.

a) वैप १ द्र. । b) = स्वरित-भेद- । c) = संधि-भेद- । d) विप. (पद-) । e) नाप. । स्त्रार्थे अण् प्र. ।  
 f) भाप. । g) पामे. वैप १, २१०९० द्र. । h) = आहुति-विशेष- । i) = (उद्गातृपार्श्ववर्तित्वात्) प्रस्तोतृ-  
 प्रतिहर्तृ- । j) = आच्छादित-भूमि- । व्यु. ? । प्र√स्तृ > प्र-स्तिर- (भाप.) + धा- (भाप.) > नैप्र. यनि. ? ।  
 k) = युग-भेद- । कर्मणि घञि पूष. दीर्घः ।

प्रासङ्ग्य- पा ४, ४, ७६;  
 -ङ्ग्यः वौश्रौ १८, ३५: ७<sup>३</sup>;  
 -ङ्ग्यौ वौश्रौ २६, ११: १३<sup>३</sup>.  
 प्र√सज्ज् (<√सस्), प्रसज्जेत  
 वाघ ११, २७; वौघ २, ८, २१.  
 प्र-सं√चक्ष्, प्रसंचक्षीत द्राश्रौ ६, १,  
 ९; लाश्रौ २, ९, ६.  
 प्र√सद्, प्रसदीदत् ऋञ् २, १०,  
 ४६; साञ् १, ७७; उनिसू ४:  
 ११; प्रसीदतु अप २०, ६, ३;  
 प्रसदीदन्तु अग्निष्ट २, ३, २: १०;  
 ३: २५; वैष्ट ४, ४: ५; जैष्ट १,  
 ६: ९; प्रसदीदत्<sup>८</sup> आपमं १, १,  
 १; वौष्ट १, १, १४.  
 प्रसादयेत् गौपि २, ६, १४; वाघ  
 २१, २८<sup>५</sup>.  
 प्रसादयाम्√अस्, प्रसादया-  
 मास वृदे ८, ३.  
 प्र-सत्त्वन्- पाउना ४, १२७.  
 प्रससद्य काश्रौ १६, ६, २९; आपश्रौ  
 १६, १२, १२; वौश्रौ.  
 प्र-सन्न,ज्ञा- -न्नः अप ७०<sup>३</sup>, ५, ३;  
 वैघ २, १४, ९; वृदे ५, १९;  
 -न्नम् नाशि १, ३, १<sup>१</sup>; ४<sup>२०</sup> ६;  
 -न्नानाप १, ४५, ५; -न्नाः आग्निष्ट  
 २, ३, ३: २६; अप ६३, १, ८;  
 ७०<sup>३</sup>, ३, ३; वृदे ६, ८९; -न्नानाम्  
 वौश्रौ २६, २: ३; -न्नानि अप  
 ५२, ११, २; -न्ने अप ६८, २, ५०;  
 -न्नेन अप ७०<sup>३</sup>, २, ४; विघ ९८,  
 १०२; -न्नेषु अप ५२, ११, ३.  
 प्रसन्न-ता- -ताम् अप २१, ७, ६.  
 प्रसन्न-मनस्- -नाः आपघ २,

१७, ४; हिघ २, ५, ३२.  
 प्रसन्न-हृदय- -यः आमिष्ट २,  
 ५, ४: १७; वौघ ४, ६, १०.  
 प्रसन्ना(ञ-अ)र्विस्- -र्विः अप  
 २४, ३, ५; ७०<sup>३</sup>, ४, २.  
 प्र-साद- -दः आमिष्ट ३, ३, १:  
 १०; ११; -दम् गोष्ट ४, ५, १९;  
 ८, ९; -दात् वाघ २१, २८;  
 -दे अप ४८, २८; -देन अप  
 १३, ५, २<sup>३</sup>; विघ १९, २२.  
 प्रसाद-तस्(ः) जैश्रौका २; ऋञ्  
 ३, २.  
 प्र-सादन- -नम् अप ७०, ७, ५.  
 प्र-सादयत्- -यन् अप १, ३८, ४<sup>५</sup>;  
 अशां ८, ४<sup>५</sup>; वृदे ४, ९०.  
 प्र-साद्य वौष्ट २, ११, ४४; वौपि  
 २, ९, २१; ११, ८; विघ.  
 प्रा-साद- ऋत ५, २, ८; पावा ६,  
 ३, १२२; -दः अप ७०<sup>३</sup>, १०, २;  
 -दम् अप ३०<sup>३</sup>, २, ७; ७०<sup>३</sup>, २०,  
 १; -दात् आमिष्ट २, ४, ३: ८<sup>१</sup>;  
 अप ६८, ५, २; -दान् शाश्रौ  
 १६, १८, १३; वृदे ६, ५६;  
 -दानि अप ७१, १५, ३; -दे  
 अप ७०<sup>३</sup>, ६, १०; आपघ १, १७,  
 ७<sup>६</sup>; हिघ<sup>६</sup> १, ५, ३९<sup>१५</sup>.  
 प्रासाद-नोपुर-मुख<sup>१</sup>- -खाः अप  
 ७०<sup>३</sup>, ११, २१.  
 प्रासाद-तोरण-ध्वज- -जेषु अप  
 ७२, ३, ७.  
 प्रासाद-तोरणा(ण-अ)टाल-द्वार-  
 प्रासादवेष्टमन्- -श्मनाम् अप  
 ७०<sup>३</sup>, १४, १.

प्रासाद-तोरणा(ण-आ)दि-  
 -दीनि अप ५७, २, ४.  
 प्रासाद-ध्वज-तोरण- -णे अप  
 ७०<sup>३</sup>, १३, ५.  
 प्रासाद-ध्वज-शाला- -लासु  
 अप ७०<sup>३</sup>, ६, ६.  
 प्रासाद-माला- -लासु विघ ९९,  
 १०.  
 प्रासादा(द-आ)दि- -दिषु अप  
 ७०<sup>३</sup>, २१, १.  
 प्रासादा(द-अ)द्वि-विमान-  
 -नानाम् अप ७१, २, २.  
 प्र-सदस्<sup>१</sup>- -दसि माश्रौ २, ४, २, २०;  
 ६, १०; वाश्रौ ३, २, २, ३, ५, ४०.  
 प्र-सं√धा > प्रसं-धान- -नम् शौन  
 ४, १११; १२२; -नाय वौश्रौ  
 २८, ११: १२.  
 प्र-सम्√ईक्ष् > प्रसम्-ईक्ष्य विघ  
 ५१, ७२.  
 प्र-सं√पश् > प्रसं-पश्यत्- -श्यन्  
 वाश्रौ १, १, १, ९.  
 प्र-संप्र√मुच्, प्र-संप्रमुच्यते शाश्रौ  
 १४, ७, १<sup>५</sup>.  
 प्र-सयन- प्र√सि द.  
 प्र-सर्ग-, प्र-सर्ज( न > )नी-  
 प्र√सज् द.  
 प्र-सर्प-, प्र-सर्पक- प्रमृ. प्र√सृप द.  
 प्र-सर्वाण- प्र√सृ द.  
 प्र-सलवि- -वि शाश्रौ १७, १४,  
 १६; १५, ४.  
 प्रसलवि-सृ (ष्ट >)ष्टा- -ष्टाम् वैष्ट.  
 ६५: ६; -ष्टामिः शाश्रौ १७, २, ९.  
 प्रसली<sup>१</sup> जैश्रौ ६: १०.

a) विप. ( [प्रासङ्ग्ययुक्त-] अश्वरथ- ) । तद्वृत्ति वृत्तिः ।  
 c) सपा. ऋ १०, ३२, १ प्रसीदतः इति पामे. । d) = गानगुणवृत्तिविशेष- । e) वस. । f) अर्थः? ।  
 g) = दास्यमय-मव- इति हरदत्तः । h) प्र० इति पाठः? यनि. शोषः ( तु. आपघ. ) । i) द्वस. > वस. ।  
 j) = सद्-प्रदेश-विशेष- । प्रास. । k) = प्रदक्षिण- । अस. वा. किवि. । l) = प्रसलवि- ( तु. संस्कृत-  
 खुनादः [१०] ) ।

प्रसव वैगृ ५, ४ : ३६१.

प्रसव<sup>१</sup> - वः शांश्रौ ६, ८, ८; १३, १९, ६; काश्रौ ७, १, २५; आपश्रौ; -वम् आपश्रौ २२, ४, १२××; वौश्रौ; -वाः आपध १, १३, ८; हिध १, ४, २२; -वात् काश्रौ ७, ३, १०; वौश्रौ ३, २, ४ : १४; जैश्रौका १६१; वैताश्रौ ३, ६; -<sup>१</sup>वानाम् शांश्रौ ४, १०, १; १५, २२, १; आपश्रौ १८, १२, ६<sup>b</sup>; वौश्रौ १०, ५६ : १<sup>b</sup>; वाश्रौ ३, ३, २, १<sup>b</sup>; हिश्रौ १३, ५, ४<sup>b</sup>; वैताश्रौ; चाश्र १५ : ६<sup>b</sup>; -वाय आपश्रौ १७, २, ६<sup>१</sup>; वैश्रौ १४, १५ : ६<sup>१</sup>; चाश्र ४० : ७<sup>१</sup>; या २, १९; ७, २०; १३, ४; १४, ३३; -<sup>१</sup>वे आश्रौ १, १३, १; शांश्रौ ४, ७, ५; ६, ८, ६<sup>०</sup>; काश्रौ ११, १, १९<sup>०</sup>; आपश्रौ; अप ३२, १, १४; या २, २६; ६, ७; -<sup>१</sup>वेन शांश्रौ ४, ५, ९××; आपश्रौ.

प्रसव-द्वय - ये जैश्रौका ११५.

प्रसव-प्रभृति - ति शांश्रौ ८, १५, ५.

प्रसव-संयुक्त - क्तम् वौश्रौ २५, ९ : ३.

प्रसव-संनिपात - ते आश्रौ ६, ६, ११.

प्रसवो(व-उ)थान<sup>१</sup> - नम् चव्यू २, ३२.

प्रसवितृ - वितृ- प्र<sup>१</sup>स्(वधा.) द्र.

प्रसव्य<sup>०</sup> - व्यम्<sup>१</sup> आश्रौ ६, १०, १३; १७; १२, ७; शांश्रौ १३, ११, ४; आपश्रौ; -व्यान् जैगृ २, १ : ७; -व्ये अप ५१, २, ४; -व्येन आगृ ४, ७, १२; -व्येषू कौस् ९३, ३१.

प्रसव्या(व्य-आ)वृ(त्त>)त्ता<sup>१</sup> - त्तया हिपि १३:१०; -त्ता: हिपि १५ : ६.

प्रसव्यो(व्य-उ)पमथित<sup>१</sup> - त्त: हिपि १५ : १६<sup>१</sup>.

२प्रसव्य - प्र<sup>१</sup>स् द्र.

प्र<sup>१</sup>सह, सघ, प्रासघेत् वाधुश्रौ ३, १७ : ४.

प्र<sup>१</sup>सहस्व अप्रा ३, ४, १;

प्र<sup>१</sup>सहस्व ( कौस् ३६; ३३;

अप ७, १, ५; अप २ : ७३;

प्रसहेत् सु २१, ३.

प्र<sup>१</sup>ससाहिषे आश्रौ १, ६, १××;

शांश्रौ; प्रसाक्षते या ११, २१<sup>१</sup>.

प्रसहन - ने पा १, ३, ३३; पाग १, ४, ७४<sup>१</sup>.

प्रसहने<sup>१</sup> कृ पा १, ४, ७४.

प्रसहान - नः ऋप्रा ९, १८<sup>१</sup>.

प्रसह्य वैगृ ३, १ : १०; अप ५३, १, २; वौध.

प्रसह्य-तस्कर - राणाम् विध ५, १६.

प्रसह्य<sup>१</sup> - ह्येन काश्रौ २३, ४, २१; आपश्रौ १०, १९, ३<sup>१</sup>; २०, ७,

१७; २२, २१, ८; भाश्रौ.

प्रसाह<sup>१</sup> - साहम् ऋप्रा ९, ४८<sup>१</sup>. प्रा(<प्र)-वाह<sup>१</sup> - पाट् अप्रा ३, ४, १<sup>१</sup>.

प्रा(<प्र)-सह<sup>१</sup> - सहः ऋप्रा ९, ४<sup>१</sup>; -सहा<sup>१</sup> काश्रौ २३, ४, २१; आपश्रौ ९, २०, ६××; २२, २१, ८; वाधुश्रौ; हिश्रौ १७, ७, २९<sup>१</sup>. प्रा(<प्र)-सह<sup>१</sup> - हात् भागृ १, १३, १५; वागृ १५, ११.

प्रसाद - दन - प्रस्. प्र<sup>१</sup>सद् द्र.

प्र<sup>१</sup>साध्, प्रसाधयते कागृ ३१, २<sup>०</sup>;

प्रसाधयतु या १२, १८; प्रसाध-

येत् निसू ५, ११:८; विध ७, १३.

प्र<sup>१</sup>साधधाति या १२, १८<sup>१</sup>.

प्रसाधन<sup>१</sup> - पावा ३, ३, २३३; -नः

वाश्रौ १, ५, ४, ३०<sup>१</sup>; -<sup>१</sup>नम्

आपश्रौ १६, ३५, ५; वाश्रौ २,

१, ८, १६; हिश्रौ ११, ८, २३.

प्रसाधनी - <sup>१</sup>न्यै<sup>१</sup> आपमं २,

८, ७; आश्रिगृ १, १, १ : ५३;

५, १ : ४१; भागृ.

प्रसाधन-कर्मन्<sup>१</sup> - र्मा या ६, २१

प्रसाधना(न-आ)च्छादन-स्नाप-

नो(न-उ)च्छिष्ट-वर्जम् वौध

१, २, ३८<sup>१</sup>.

प्रसाधनो(न-उ)च्छादन-स्नापनो

(न-उ)च्छिष्टभोजन<sup>१</sup> - नानि

वौध १, २, ३६<sup>१</sup>.

प्रसाधि(न् >)नी - न्यै वौगृ १,

३, ३९<sup>१</sup>.

a) वैप १ द्र. ।

b) पाभे. वैप १, २२१४ वृ द्र. ।

c) पाभे. वैप १, २२१५ d द्र. ।

d) = परिशिष्ट-विशेष- ।

e) = अत्रप्रदक्षिण- । प्रास. ।

f) क्वचिद् वा. क्विवि. ।

g) सुस्पृपीयः-

समासः । h) सस्थः उपमथितः इति नेष्टम् ( वैतु. संस्कर्तुः सूची व्या [क्वि.], उप<sup>१</sup> इति द्वे पदे ?) । i) पाभे.

वैप १, २२१५ i द्र. ।

j) 'हस' इति पाका. ।

k) विप. । गस. ।

l) वा. क्विवि. ।

m) प्र<sup>१</sup> इति पाठः ?

यनि. शोधः (तु. आपश्रौ २२, २१, ८) ।

n) उप. भावे अच् प्र. । वा. क्विवि. ।

o) धा. अलंकरणे वृत्तिः ।

p) उप. भावाद्यर्थे प्र. ।

q) सप्र. 'धन्यै <> 'धिन्यै इति पाभे. ।

r) वस. ।

s) 'र्जनम् इति मैसू. ।

t) द्रस. । उच्छादन- = छत्रधारण- । u) 'धनाच्छा' इति मैसू. ।

प्र-साध्य आपश्रौ १५, २१, ७.  
 ऋँ-सामविद्- -वित् अप १, ३९,  
 ५; ४१, ६; अशां ९, ५; ११, ६.  
 प्र-सार- , ण- प्रसृ. प्र✓सू द्र.  
 प्र-साव- प्र✓सू (वधा.) द्र.  
 प्र-साह- प्र✓सह द्र.  
 प्र✓सि > प्र-सयन- -नात् या ६,  
 १२.  
 प्र-सित- -ते पा ५, २, ६६.  
 प्र-सिति<sup>०</sup>- -ति: या ६, १२०<sup>१</sup>;  
 -तिम् आश्रौ ४, ६, ३; आपश्रौ  
 १, २१, ७<sup>०</sup>; वौश्रौ; या ६, १२०<sup>१</sup>;  
 -त्या या ६, १२; -त्या: वाश्रौ  
 १, ३, ७, १२<sup>१</sup>; -त्यै वौश्रौ  
 १, २० : २४<sup>१</sup>.  
 प्र✓सिच्, ङ्च्, प्रसिञ्चति वौश्रौ  
 १७, ४० : २८; आम्रिगृ ३, १,  
 १ : ९; भागृ २, ११ : ९; हिगृ  
 २, १०, ६; प्रसिञ्चन्ति पागृ ३,  
 १०, २१; प्रसिञ्चामि कौसू  
 १२२, ३<sup>१</sup>; प्रसिञ्चेत् गोगृ १, ३,  
 १; १२; दागृ १, २, १७; कौसू  
 १२२, ३; प्रसिञ्चेरन् शंघ ३४४;  
 प्रसिञ्च्युः भाश्रौ ९, १५, ४; कौगृ  
 ५, ४, ३.  
 ऋँ-प्रसिच्यते आश्रौ २, १६, १९;  
 वौश्रौ ५, ४ : १५; भाश्रौ.  
 प्रसेचयति वैश्रौ ५, ५ : ९.  
 प्र-सिच्य वैश्रौ ५, ५ : ८; जैगृ.  
 प्र-सिञ्चत्- -ञ्चन् कौसू ४०, १; ९.  
 प्र-सेक<sup>०</sup>- -कम् वौश्रौ १०, ५० :  
 २; ५४ : १<sup>०</sup>; ५; १५, ३५ :  
 १<sup>०</sup>; ९; आम्रिगृ ३, ६, ४ : ५<sup>१</sup>;

वौषि १, १३ : ५<sup>१</sup>; -कस्य वौश्रौ  
 २२, १० : १०; १४.  
 प्र-सेचन<sup>०</sup>- -नम् वैश्रौ १९, ६ :  
 ११३<sup>०</sup>.  
 प्रसेचन-चत्<sup>०</sup>- -वती आपश्रौ  
 १५, ३, १०; भाश्रौ ११, ३, ५.  
 प्र✓सिद्, प्रसिध्यति वाधूश्रौ ३,  
 ६१ : ३<sup>१</sup>; वैताश्रौ ८, १६; कौशि  
 ८०; प्रसिध्यतः ऋप्रा ११, ७०.  
 प्र-सिद्ध, द्वा- -द्वाः वौश्रौ ५, ९ :  
 १८××; माश्रौ; -द्धम् आपश्रौ  
 १२, २६, १४<sup>२</sup>; वौश्रौ; वौषि २,  
 ३, ६<sup>१</sup>; या ६, १६; -द्वा वौश्रौ  
 ३, १ : १०××; आम्रिगृ; -द्वाः  
 वौश्रौ २, ७ : २३××; सु १, ३;  
 -द्धानि वौश्रौ २, ७ : २२;  
 -द्दे पावा ३, १, ४५; -द्देन  
 वौश्रौ १२, २० : ९××; मीसू  
 ११, २, ६२; -द्दौ वौश्रौ १५,  
 ११ : १५.  
 प्रसिद्ध-ग्रहण<sup>१</sup>-त्व- -त्वात् मीसू  
 ७, २, १३; १०, १, ३५; ६,  
 ५६.  
 प्रसिद्ध-भास्<sup>१</sup>- -भाः या ६, ४.  
 प्रसिद्ध-संनिधान- -नात् मीसू  
 ९, ४, २४.  
 ?प्रसिद्धा(द्ध-आ) चार<sup>१</sup>- -रः  
 हिद्य २, ५, १६३.  
 ?प्रसिद्धा(द्ध-अ)न्त- -न्तेन मीसू  
 ९, ४, ५५<sup>६</sup>.  
 प्र-सिध्यत्- -ध्यतः ऋप्रा ११, ६७.  
 प्र-सेधमान- -नाः<sup>१</sup> लाश्रौ ८, ६, ८.  
 प्र✓सु (प्रसवैश्वर्ययोः), प्रसौति शाश्रौ

४, ६-७, १७; काश्रौ २, २, ८××;  
 आपश्रौ; ऋँ-प्रसुहि<sup>१</sup> आश्रौ ५,  
 ११, १; शाश्रौ ७, १४, ९; काश्रौ.  
 प्र✓सु(अभिषवे), प्रसुनोति वाधूश्रौ ४,  
 ४० : ६; प्रसुनयुः आश्रौ १२,  
 ४, १०.  
 प्र-सुत- -तः काश्रौ ७, १, २१;  
 आपश्रौ १०, १५, १<sup>३</sup>××; वौश्रौ;  
 -तस्य वौश्रौ २५, १६ : ३;  
 -ताः आपश्रौ २३, ११, ७; वौश्रौ  
 १६, ३ : १××; -ते काश्रौ ६,  
 ६, २५; ८, १५; आपश्रौ ११,  
 १३, ११; -तेन आपश्रौ २३,  
 १४, १६; वौश्रौ १७, १९ : १०;  
 हिश्रौ १८, ४, ६८.  
 प्र-सुप्त- प्र✓स्वप् द्र.  
 प्र-सुवत्- प्र✓सू (वधा.) द्र.  
 प्र✓सू(वधा.)<sup>b</sup>, प्रसूते आम्रिगृ २, ५,  
 २ : ५; शंघ १६.  
 प्रसूयते आम्रिगृ २, ७, ६ : ४;  
 अप १, ४४, ७××; प्रसूयन्ते अप  
 ७१, ७, ४; प्रसूयत अप ६८,  
 २, २३; ७१, ६, १.  
 प्रसुवति माश्रौ १, ५, ५, ११; अप  
 ४१, ५, ५; या १२, १३; प्रसुवामसि  
 अप १<sup>३</sup>, १, ५; प्रसुवाति वाधूश्रौ  
 ४, १०३ : १०<sup>१</sup>; ऋँ-प्रसुवै<sup>१</sup>  
 शाश्रौ १६, १, १८; २०; ऋँ-  
 (सुवतु) आश्रौ ५, १२, १०;  
 २४; ऋअ २, १०, १७५; वृदे ८,  
 ७४; ऋँ-प्रसुव आपश्रौ १२, २९,  
 १४<sup>१</sup>; १८, २, १०; काठश्रौ  
 १४५<sup>१</sup>; वौश्रौ ११, २ : ३<sup>१</sup>;

a) नाप. । प्रास. । b) वैष १ द्र. । c) पाभे. वैष १, २२१६ e द्र. । d) = [अनयनार्थ-]सुवादि-  
 मुख- (तु. रुद्रदत्तः [आपश्रौ १५, ३, १०]) । करणे घच् प्र. । e) सप्र. प्रसेकम् <> प्रसेचनम् इति पाभे. ।  
 f) भाप. > वा. क्रि. । g) विप. (दोग्र-). । h) सिद्धम् इति R. । i) वस. । j) पाठः? सपा. आपघ  
 २, २३, १० विरुद्ध लाचारः इति । k) पाठः? प्रसिद्धां तेन इति शोधः (तु. जीसं.) । l) = त्रासयन्तः इति भाष्यम् ।  
 m) सपा. प्रसुहि <> प्रसुव इति पाभे. । n) पृ ५७१ g द्र. ।

माश्रौ २,४,३, ३०<sup>३</sup>; ६, २७<sup>३</sup>;  
 ६, १, १,६; वाधूश्रौ; हिथ्रौ<sup>३</sup> ८,  
 ८, ६३; ९, २, ३८; ४, ६३;  
 ऋप्र<sup>३</sup>सुव आपश्रौ ३, २ : ८;  
 वौश्रौ ३, २६ : ७××; माश्रौ;  
 प्रासुवत् शाश्रौ ८, १८, १<sup>३</sup>;  
 वाधूश्रौ ४, १०३ : ११; प्रसौ-  
 यात् वौश्रौ २३, ७ : २७; प्रसु-  
 वीरन् आश्रौ २, १८, ८.

प्रासावीत् या १२, १३<sup>३</sup>;  
 ऋप्रासावीः आम्रिष्ट १, १, ४ :  
 ६××; आपगृ.

प्र-सवि(,ची।ऋप्रा.)वृ-त्ता आश्रौ  
 १०,६, ८; शाश्रौ १६, १, १८;  
 आपश्रौ; ऋप्रा ९, ५२; या १०,  
 ३१; -तारम् या ७, ३१; -त्रे  
 शाश्रौ ३५, १४, ४××; काश्रौ.

प्र-सविन्- पा ३, २, १५७.

२प्र-सव्य<sup>b</sup> -व्यः अप ५१, ५, ५.

प्र-साव<sup>c</sup> -वात् वौश्रौ २९, ८ : ५.

प्र-सुवत्- -वन् वौश्रौ १४, २० : ८.

ऋप्र-सु<sup>d</sup> -सुः आपमं १, १३, ३;  
 हिष्ट १, २५, १; -स्वः आपमं  
 १, ९, ३.

प्रसू<sup>e</sup>-मय- -यम् आपश्रौ ८, १,  
 १०; वौश्रौ ५, १ : ७××; माश्रौ  
 ८, १, १३; वैश्रौ ८, ३ : १३.

प्र-सूत,ता- पाग ५, २, ६२<sup>३</sup>; -तः  
 ऋशाश्रौ १, ४, ५; ४, ७, १७;  
 काश्रौ २, २, १<sup>३</sup>××; आपश्रौ;  
 वैताश्रौ ३, ९<sup>३</sup>; भाष्ट १, ७ :  
 ९<sup>३</sup>; कौसू २, २१<sup>३</sup>; या ९,  
 १४<sup>३</sup>; -ऋतम् आष्ट १, १५, १;

कौष्ट १, १६, ७; शांष्ट १, २४, ४;  
 -ऋता या २, ५; १९; ९, १९;  
 -ऋताः आश्रौ ५, २, १४<sup>३</sup>; काश्रौ  
 ५, २, १४; आपश्रौ; द्राश्रौ १५,  
 ३, ९<sup>३</sup>; लाश्रौ ५, ११, ९<sup>३</sup>;  
 -तानाम् काश्रौ ९, १४, २०<sup>३</sup>;  
 -ताम् अशां १३, ४; -तायाम्  
 आम्रिष्ट २, ७, ४ : २; वौष्ट ४,  
 ११, १; अप ७२, २, ७; विध  
 १७, २१; -तासु विध २२, ४३;  
 -ते द्राश्रौ ७, ३, २९; लाश्रौ ३,  
 ३, २९<sup>३</sup>; सु ३, ५; वैध २, १५,  
 ५; -तौ वौश्रौ ५, ८ : १०.

प्रसूतक- पा ५, २, ६२.

प्रसूता(त-अ)न्त<sup>f</sup> -न्तम् काश्रौ  
 १०, ३, २४.

प्र-सूति- -तिः अप ७०<sup>३</sup>, ११, २६;  
 गौध ८, ३; वृदे १, ९६; ३, ३०.

प्र-सूत<sup>g</sup> -तः माश्रौ १, ७, १, ९<sup>३</sup>;  
 -तम् हिथ्रौ ५, १, ९<sup>३</sup>.

प्र-सूयमा(न>)ना- -ना विध ८८,  
 १; -नाम् अप ९, ३, १.

प्र०सूद्, प्रसूदयति वौश्रौ ४, १ : २६.

प्र-सूद्-, प्रा-सूद्- ऋत ५, २, ८<sup>३</sup>.

प्र०सू, प्र<sup>३</sup>सिखते शुप्रा ६, ७<sup>३</sup>;  
 ऋप्र<sup>३</sup>सिसुतम् आश्रौ ३, ८, १;  
 वौश्रौ १८, १७ : १३; ऋप्र-  
 (सिसुतम्) शाश्रौ ८, १२, ८; ९,  
 २७, २; काश्रौ.

ऋप्र<sup>३</sup>सले आश्रौ ३, ७, ६; ८,  
 ९, २; ऋप्र (सले) शाश्रौ ६, १०,  
 २; १०, ९, ४; ११, ५; ऋअ २,  
 ७, ९, ५; वृदे ६, १९.

प्रसारयति वौष्ट १, २, २१; प्र<sup>३</sup>  
 सारय वौश्रौ ६, ३१ : २०<sup>३</sup>;  
 प्रसारयेत् विध ८७, १; प्रसार-  
 यीत् आपध १, ६, ३; प्रसारयेत्  
 गौध ९, १४.

ऋप्र-सर्वाण- -णः शैशि ११६;  
 -णम् अप्रा ३, २, १०.

प्र-सार- -रः याशि १, ६४.

प्र-सारण<sup>h</sup> -णम् अप्रा ३, १, १३;  
 माशि ४, १३; पावा १, १, ४;

-णे पावा १, १, ३; ६, ४, १३३.  
 प्रसारण<sup>o</sup> पावा ६, १, १२.

प्रसारण-ग्रहण- -णम् पावा ६,  
 १, ३७.

प्रसारण-प्रकरण- -णे पावा ६,  
 १, ३७.

प्रसारण-प्रतिषेध- -धात् पावा  
 ६, १, ३३.

प्रसारणप्रतिषेधा(व-अ)र्थ-  
 -र्थम् पावा ६, १, ३७.

प्रसारण-प्राप्ति- -प्तिः पावा ६,  
 १, ३७.

प्रसारणा(ण-आ)दि- -दिपु पावा  
 ७, २, १.

प्रसारणिन्- -णिभ्यः पावा ३,  
 २, ३.

प्र-सारयत्- -यन् वाश्रौ ३, ४, ४,  
 १५.

प्र-सारित,ता- -तम् वाध ३, ४६;  
 वौध १, ५, ४८; विध २३, ४८;  
 वैध ३, ४, ६; -तया वैश्रौ १२,  
 १७ : १७; हिथ्रौ ७, २, ३९;  
 -ताम् द्राष्ट ३, १, ४९.

a) पामे. पृ १७४० m द्र. । b) उप. कृत्यः यत् प्र. । c) = अश्व्यनुज्ञा- । उप. भावे घन् प्र. ।

d) वैपश् द्र. । e) प्रसू- = पुष्प- । f) सप्र. प्रसूमयम् <> प्रसूनः <> प्रसूनम् <> काश्रौ ५, १, २०  
 कुशप्रस्वः इति पामे. । g) लु. पासि. [ निसा. ] । h) पामे. वैप २, ३४. प्रसूतः गोत्रा २, १, २ टि. द्र. ।

i) पामे. वैप १, २२१५ d द्र. । j) = सुत्या- इति भाष्यम् ? । k) वस. । l) विप. (प्रस्तर-, वर्द्धिस्-) ।  
 m) पामे. वैप १, २२१७ n द्र. । n) भाष., नाप. (पारिभाषिक-संज्ञा- [पा.]) ।

प्रसारित-इ(शा>)श<sup>a</sup>- -शम्  
काश्रौ ७, २, १६.  
प्रसारित-पाद<sup>b</sup>- -इः शांश्च ४, ८,  
७; वौष १, ५, १५; वैष २, १२, ३.  
प्रसारितपादो(द-उ)पत्यकृतो  
(त-उ)पाश्रित<sup>b</sup>- -त्स्य वाघ  
१३, २३.  
प्रसारित-भुजद्वय<sup>b</sup>- -यस्य विध  
११, ३.  
प्र-सारिन्- पा ३, २, १४५; -रिणा  
अप्रा ३, ४, १०.  
प्र-सार्य आपश्रौ १५, १९, ४; २२,  
२८, १०४; वौश्रौ.  
प्र-सार्यमा(ण>)णा- -णाम् गोरु  
३, ६, ७.  
प्र-सृत्, ता- -तम् हिश्रौ २१, २,  
५३<sup>c</sup>फँ; -तात् वाघ १५, २०<sup>d</sup>;  
-तान् शांश्रौ १६, १, २; आश्रु १,  
१३, ४<sup>e</sup>; -तायाम् द्वाश्रु ३, ४,  
११; -ते द्वाश्रौ ९, ३, २३<sup>f</sup>;  
-तेन आश्रु १, १३, २<sup>g</sup>६.  
प्रसृत्<sup>e</sup>-यावक<sup>h</sup>- -कः वाघ २२,  
११; वौष ३, १०, १२; गौष १९,  
१४; -कम् वौष ३, ५, ४; ६, १<sup>i</sup>.  
प्रसृत्वा (त-आ)कृति<sup>a</sup>- -तिः  
आपश्रौ ६, ३, ७.  
प्र-सृत्ति<sup>l</sup>- -तिना कौसू ६७, २६;  
-तिम्<sup>k</sup> माश्रौ १, २, २, ३०;  
वाश्रौ १, २, ४, ६६; वौश्रु १,

६, २६.  
प्रसृत्ति-त्रय- -यम् विध १४, २.  
प्रसृत्ति<sup>e</sup>-यावक<sup>h</sup>- -कम् विध  
४८, १<sup>i</sup>.  
प्र-सृत्<sup>l</sup>->प्रसृ-ता- -ता कौशि ४.  
प्र√सृज्, ङँप्रसर्जन्<sup>m</sup> अप १, ४०, १;  
अशां १०, १.  
प्रसृजति या १०, ४<sup>क</sup>फँ; प्र<sup>...</sup>  
सृजन्ति हिश्रौ १७, ७, २५-२७;  
प्रासृजत् या १, ७<sup>३</sup>; प्र<sup>...</sup>सृ-  
जत् या १, ७<sup>३</sup>.  
प्रसृजन् या १०, ४<sup>क</sup>फँ; प्र<sup>...</sup>  
सृजन्त निस् ९, ५: ७<sup>३</sup>फँ;  
प्र(असृजन्त) शैशि ३३४<sup>क</sup>फँ; प्र<sup>...</sup>  
सृजन्त निस् ३, १०: ३४<sup>क</sup>फँ;  
ङँप्र(असृजन्) साश्रु १, ५३४; २,  
३३६; प्र (असृजन्) ऋश्रु २, ९,  
१७<sup>क</sup>फँ.  
प्रसृज्यन्ते आपश्रु २, १६; भाश्रु  
१, १२: १६; प्रसृज्येत लाश्रौ  
१०, १९, १; गोरु १, ५, २२.  
प्र-सर्ग<sup>a</sup>- -र्गो शांश्रौ ३, २१, ७.  
प्र-सर्ज(न>)नी<sup>o</sup>- -नी कौसू २९,  
५.  
प्र-सृज्यमान- -नम् निस् ३, १२: २.  
प्र-सृ(ष्ट>)ष्टा- -ष्टाः आश्रु ४, ७,  
१५.  
प्रसृष्ट-वृषण<sup>a</sup>- -णः जैश्रु १, १२:  
३<sup>क</sup>फँ.

प्र-सृज्यमान- -णः आश्रु ३, १०, १.  
प्र-सृष्टवै वाधूश्रौ ४, ७५: २२; ३४.  
प्र√सृप्, प्रसृपति माश्रौ २, ५, १, १;  
वाश्रौ ३, ३, ४, १८<sup>१</sup>१; अप ७१,  
४, ३; प्रसृपतः वौश्रौ १२, १८:  
७; प्रसृपन्ति आश्रौ ५, ३, २१;  
शांश्रौ ६, १२, १××; आपश्रौ  
१२, २९, १५; १८, २१, ५<sup>३</sup>;  
२२, ९, १७; काश्रौसं: ङँप्रसृपतु  
वौश्रौ १७, ४०: २३; आश्रिणु १,  
३, ३: ७; प्रसृपत शांश्रौ ६, १३,  
३<sup>क</sup>फँ; प्रसृपाणि शांश्रौ १५, १४,  
७<sup>क</sup>फँ; प्रसृपेत् आपश्रौ १३, ६,  
१७<sup>क</sup>फँ; वौश्रौ २१, १९: ४; ७;  
प्रसृपेयुः शांश्रौ १५, १४, ६;  
लाश्रौ ९, २, ५<sup>३</sup>.  
प्रसृपयति वौश्रु ४, ४, ९.  
प्र-सृप- > प्रासृपिक<sup>r</sup>- -कस्य  
नीस् १०, २, ३५.  
प्र-सृपक- -काः आश्रौ ५, ३, २३;  
हिश्रौ १०, ४, ६२; जैश्रौका १६८;  
-काणाम् आपश्रौ १३, ६, १७;  
-केभ्यः आपश्रौ ११, ९, ८××;  
वौश्रौ.  
प्रासृपक<sup>s</sup>- -कम् माश्रौ २, ४,  
५, १५.  
प्र-सृपण- -णम् वौश्रौ २५, १९:  
६; -णात् आश्रौ ५, १, २.  
प्रसृपण-प्रन्तुति- -तयः वौश्रौ

a) वस. । b) दस. (तु. मनु: [४, ११२]) । c) = संप्रसारण- । d) = नदी- । सप्र. गौष २०,  
१० सवन्तीभ्यः इति पाभे. । e) = परिमाण-विशेष- । f) सप्र. लाश्रौ ३, ७, ८ प्रस्तुते इति पाभे. ।  
g) वैतु. St. Old. च दधिप्र<sup>o</sup> इति पूर्वेण समस्तमिति । h) उप. = यवविकार- । i) सपा. 'सृत्'  
<>'सृत्ति' इति पाभे. । j) भाप., नाप. (परिमाण-विशेष-) । k) पाभे. वष १, २२१६ e द. ।  
l) उप. कर्तार कः प्र. । m) 'तः इति पाठः ? यनि. शोषः । n) = प्र-वास- (तु. सप्र. आश्रौ  
२, ५, ७) । o) = ग्रन्थि- इति केशवः । p) पाठः ? । सप्र. तां १८, ९, ४ आपश्रौ १८, २१, ५  
प्रसृपन्ति इति, हिश्रौ १३, ७, १३ संप्रसृपन्ति इति, लाश्रौ ९, २, ५ प्रसृपेयुः इति पाभे. । q) भाप. ।  
r) तस्येदनीयप् ट्क् प्र. । प्रसृ इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. आन. प्रन्.) । s) = (प्रसृपकसंभन्धिन्-) द्रव्य- ।  
तस्येदनीयः अण् प्र. ।

२६, २ : ९.  
 प्रसर्पण-मन्त्र- -न्त्रैः वैश्रौ १६,  
 ५ : ८; हिश्रौ ९, २, ७.  
 प्र-सर्पत्- -र्पन्तः वैताश्रौ १८, १२.  
 प्र-सर्पिन्- -र्पिणाम् आश्रौ ५, ३, २६.  
 प्र-स्रस- -सः शाश्रौ ७, ७, ४;  
 आपश्रौ १३, ९, ३; -सम् वीश्रौ  
 २१, १९ : ७; -साः आपश्रौ १३,  
 १५, ६; -साय आपश्रौ १३, ७,  
 ८; -सेभ्यः काश्रौ १०, २, ३२;  
 -सेषु आपश्रौ २१, १०, २;  
 हिश्रौ १६, ४, १५.  
 प्र-स्रस्य आश्रौ १, ४, ३; ५, ३,  
 २३××; शाश्रौ.  
 प्र-स्रस्यत्- -स्रस्यन्तः<sup>०</sup> हिश्रौ ८, ५,  
 १५; वैताश्रौ १८, ११.  
 प्र-स्रस्यत्- -स्रस्यन् आपश्रौ १२,  
 २०, ६; -स्रस्यन्तः<sup>१</sup> आपश्रौ  
 १२, १८, १६; लाश्रौ ८, ९, १२<sup>०</sup>.  
 प्र-स्रस्येक- -स्रस्येचन- प्र√सिच् द्र.  
 प्र-स्रस्यमान- प्र√सिध् द्र.  
 प्र-<sup>L</sup>प्रा<sup>०</sup>स्रे(ना>)न<sup>०</sup>- ऋत ५, २,  
 ८; -नेन माश्रौ ६, १, ३, २७<sup>०</sup>.  
 प्रस्रोदरी<sup>०</sup>- -र्यै वैश्र ३, १६ : ६.  
 प्रस्कण्व<sup>०</sup>- पा ६, १, १५३; -ण्वः  
 शाश्रौ १६, ११, २६; ऋश्र २,  
 १, ४४; ८, ४९××; वृदे; साश्र  
 १, ९६<sup>१</sup>; या ३, १७; -ण्वम्  
 शाश्रौ १६, ११, २५; -ण्वस्य  
 ऋश्र २, ८, ५५; शुश्र २, ४१८;  
 या ३, १७<sup>०</sup>.  
 प्र√स्कन्द, प्रस्कन्दति वीश्रौ ८, ९ :  
 २३; प्रस्कन्द कौसू २५, २८<sup>०</sup>;  
 प्रस्कन्देत् आपश्रौ १३, ९, ९;

वैश्रौ १६, ११ : ७; हिश्रौ ९, ३,  
 १५; अप ४०, ६, ६<sup>०</sup>.  
 प्रस्कन्दयति वीश्रौ १, ६ : २६;  
 ७ : १४<sup>०</sup>××; भाश्रौ; प्रस्कन्दयस्व  
 माश्रौ २, ५, १, ११; प्रस्कन्दयेत्  
 वीश्रौ २०, ७ : १८××; वैश्रौ  
 ४, ८ : १०.  
 प्र-स्कन्दत्- -न्दतः आपश्रौ १, २०,  
 ८; हिश्रौ १४, १, ४०.  
 प्र-स्कन्दन<sup>०</sup>- पाग ३, ४, ७४;  
 -नात् वीश्रौ २०, ६ : २८××;  
 -ने वीश्रौ २१, १७ : १  
 प्रस्कन्दना(न-अ)न्त<sup>१</sup>- न्तः  
 वीश्रौ २५, ३१ : ७; -न्तम्  
 वीश्रौ २४, ३३ : ३××.  
 प्र-स्कन्दयित्वा आपश्रौ १, २०, ११;  
 २१, ७.  
 प्र-स्कन्ध गौध २१, २२.  
 प्र-स्कन्न- -न्नात् आपश्रौ ९, १७,  
 १<sup>०</sup>; -न्नान् भाश्रौ १, २२, ८;  
 -न्नानि भाश्रौ १, २३, ९.  
 प्रस्तन्ति वाश्रौ ३, १, २, ४४.  
 प्र-स्तर- -स्तार- प्रसृ. प्र√सृत्, स्तृ  
 द्र.  
 प्र-स्तीत-, स्तीम- प्र√सृथै द्र.  
 प्र-स्तीर्ण-, र्यै प्र√सृत्, स्तृ द्र.  
 प्र√स्तु, प्र<sup>०</sup>स्तवते आश्रौ ६, ७,  
 ८; ९, ९, ११; आपश्रौ ११, ९,  
 १; हिश्रौ ७, ५, ३५; १०, ३, ४१;  
 प्र<sup>०</sup>स्तवते शाश्रौ ५, ७, ३;  
 १३, ९, २; १५, ३, ५; काश्रौ.  
 प्रस्तौति वीश्रौ १६, ७ : ९;  
 हिश्रौ १६, ४, २०; निसू २,  
 १० : १; १५; प्र<sup>०</sup>स्तवे )

आश्रौ ३, ८, १; शाश्रौ ८, ३,  
 ११; काश्रौ; प्र<sup>०</sup>स्तुहि आपश्रौ  
 १२, १७, १३××; वैश्रौ; प्र<sup>०</sup>-  
 (स्तौत>ता) आश्रौ ६, ४, १०;  
 शाश्रौ १२, १, ३; ४; १८, १३, ६;  
 ऋश्र; प्रस्तुयात् द्राश्रौ ११, ४,  
 ४; लाश्रौ ४, ४, ४; ७, ६,  
 १३.  
 प्र<sup>०</sup>स्तविपम् कौसू १०७, २<sup>०</sup>.  
 प्रस्तावयति निसू ३, १३ : ११;  
 ४, १ : २५; ७, २ : १३; १७;  
 प्रस्तावयन्ति निसू ४, १ : २६;  
 प्रस्तावयामः निसू ४, १ : २८.  
 प्र-स्ताव- पा ३, ३, २७; -वा<sup>१</sup>  
 आपश्रौ २१, १०, ४; लाश्रौ ६,  
 १, १५××; निसू ४, १ : २७;  
 वृदे ८, १२२; -वाः<sup>१</sup> जैश्रौका  
 ११७; द्राश्रौ; -वात्<sup>१</sup> द्राश्रौ ३, ४,  
 २५; लाश्रौ १, १२, ११; ७, ८, ७;  
 -वे जैश्रौका ११७; निसू ४, १ :  
 ३५<sup>१</sup>; ३८; -र्वेन आपश्रौ १७,  
 १०, १; वैश्रौ १९, ६ : १४; -र्वैः  
 द्राश्र ३, २, २१.  
 प्रास्ताविक<sup>१</sup>- -के लाश्रौ ७,  
 ६, ११.  
 प्रस्ताव-निमित्त<sup>१</sup>- -त्तः निसू  
 ४, १ : ३४.  
 प्रस्ताव-प्रतिहार-णि (<नि)  
 धन- नानाम् लाश्रौ ७, ९, ६.  
 प्रस्ताव-शान्त्य(न्ति-अर्थ>)  
 र्या- -र्या लाश्रौ ९, ७, ५; निसू  
 २, १३ : ४१.  
 प्रस्तावा(व-अ)न्त- -न्तेषु द्राश्रौ  
 ५, २, ९; लाश्रौ २, ६, ४.

a) परस्परं पामे. । b) ष्यन्तः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सस्थ. भक्षयिष्यन्तः) । c) ऋत. पाठः ।  
 d) वैष १ द्र. । e) = भूमि-देवता- । व्यु. ? । f) प्रा<sup>०</sup> इति पाठः? यनि. शोधः (तु. ऋश्र २, १, ४४) ।  
 g) उप. भावे अपादाने वां प्र. । h) वस. । i) = (सामादौ प्रस्तौत्-प्रस्तूयमाना-) भक्ति- (तु. लाश्रौ ७, ६, १३) ।  
 j) तस्येदमीयप् ठक् प्र. ।

प्रस्तावान्त-लक्षण- -णम्  
 लाश्रौ ६, १०, १.  
 प्रस्तावा(व-अ)वधि<sup>a</sup>- -धि<sup>b</sup>  
 जैश्रौका १५१.  
 प्र-स्ताव्य<sup>c</sup>- -व्ये लाश्रौ ६, १,  
 २०.  
 प्र-स्तुत, ता- -तः निच् १०, ६:  
 १६; -तम् आपश्रौ १९, १२,  
 ५; वौश्रौ १९, ३: १३; हिश्रौ  
 २३, २, १६; -ताः वैश्रौ ६, ५:  
 ९; -तायाम् वौश्रौ ७, ८:  
 १२; ८, २: २०××; वैश्रौ;  
 -तासु काठश्रौ ५९; -ते वौश्रौ  
 ८, ८: ८××; माश्रौ; हिश्रौ १६,  
 ३, १९<sup>d</sup>; २३<sup>d</sup>; २९<sup>d</sup>; ४०<sup>d</sup>;  
 लाश्रौ ३, ७, ८<sup>e</sup>; -तेऽ-ते  
 जैश्रौका १५४; -तेषु वंध  
 १२.  
 प्र-स्तुत्य जैश्रौका १२४; द्राश्रौ ५, २,  
 १८; ९, ४, ९; लाश्रौ; प्रस्तुत्य-  
 ऽप्रस्तुत्य माश्रौ ५, २, ९, ५.  
 प्र-स्तुयमान- -ने जैश्रौ १७: १८;  
 जैश्रौका १२३; द्राश्रौ ६, १, १५;  
 लाश्रौ २, ९, ११.  
 प्र-स्तोवृ<sup>f</sup>- पाठभो २, १, १४५;  
 -तः काश्रौ २६, २, २५;  
 आपश्रौ १३, २०, ३××; वौश्रौ;  
 -ता आश्रौ ४, १, ६; शाश्रौ ५,  
 १२, ३××; काश्रौ; लाश्रौ १, ५,  
 १; ९, १; १४; जैश्रौका ३४<sup>g</sup>;  
 वैताश्रौ ११, ३; -तारम् शाश्रौ  
 १७, १४, ४; आपश्रौ; -तु:  
 आश्रौ ९, ४, १०; १२, ९, २;

वौश्रौ; -त्रा काश्रौ ११, १, १९;  
 जैश्रौका ४६××; द्राश्रौ १५, २,  
 १९; लाश्रौ ५, १०, १९; -त्रे  
 काश्रौ ९, ६, ३४; १५, ८, २३;  
 आपश्रौ.  
 प्रस्तोता-प्रतिहर्तृ- -तारौ शाश्रौ  
 १७, १४, ६; वौश्रौ १७, १८: २;  
 १९: २; जैश्रौ २: १३××;  
 -तृभ्याम् वौश्रौ १२, १८: १५;  
 जैश्रौका १०९.  
 प्रस्तोतृ-प्रशास्तृ-ब्राह्मणाच्छंसि-  
 पोतृ-नेपट्( पृ-अ)च्छावाको(क-  
 ल) श्लेष-प्राचस्तुत्-सुब्रह्मण्य-  
 -ण्येभ्यः काश्रौ १०, २, ३१.  
 प्रस्तोतृ-मैत्रावरुण-प्रतिप्रस्थातृ-  
 ब्राह्मणाच्छंसिन्- -सिन्धः लाश्रौ  
 ९, १, १०.  
 प्रस्तोतृ-सुब्रह्मण्य- -ण्यौ द्राश्रौ  
 १, १, १३; लाश्रौ १, १, १३.  
 प्र-स्√तुम् पावा ६, १, १५७.  
 प्र√स्तु, स्तृ, प्रस्तृणाति कौस् ८७,  
 २७.  
 प्र-स्तर<sup>h</sup>- -रः काश्रौ ५, १, २०<sup>i</sup>;  
 ८, १, १०; २२, १०, २४; आपश्रौ;  
 -रम् आश्रौ २, १९, २२<sup>j</sup>; ५,  
 २०, ६; काश्रौ; वौश्रौ ५, १:  
 ७<sup>k</sup>; कौश्रु ४, ४, १०<sup>k</sup>; -रयो:  
 वौश्रौ ५, ६: ७; -रस्य काश्रौ  
 ८, ६, २७; आपश्रौ ८, १४, ७;  
 वौश्रौ; -रात् आपश्रौ ३, ७, ५;  
 काठश्रौ १३; वौश्रौ १, १९: २१;  
 भाश्रौ ३, ६, ९<sup>k</sup>; ४, १८, ४<sup>k</sup>;  
 माश्रौ; -रान् वैश्रौ १८, १६:

८५; हिश्रु २, ६१××; -राय  
 वौश्रौ १, २: ९××; माश्रौ १,  
 १, २९; २२; -रे आश्रौ ४,  
 ५, ७; शाश्रौ ५, ८, ५; १०,  
 ३६; काश्रौ; वाघ ४, १४<sup>l</sup>; -रेण  
 वौश्रौ ६, १८: ३××; वाघश्रौ ४,  
 २६<sup>m</sup>: ६; वैश्रौ ७, १०: ६; -रै:  
 अप ३३, ७, ७<sup>m</sup>; -रौ वौश्रौ ५,  
 ६: ३; ६.  
 प्रास्तर<sup>n</sup>- -रम् शुभ्र १, ९८;  
 -रे शुभ्र १, १०: ६; १२७.  
 प्रास्तरौ- -रीम् शुभ्र १,  
 १२८.  
 प्रस्तर-ग्रहण- -णम् काश्रौ २,  
 ७, १८.  
 प्रस्तर-वृण- -णे आपश्रौ ४, १२,  
 ८.  
 प्रस्तर-परिधि- -धि आपश्रौ  
 ११, २, ११; १८, २०, २०; वौश्रौ  
 ४, १०: १४××; भाश्रौ १२, २,  
 ९; हिश्रौ ७, ४, २; -धीन् वौश्रौ  
 २३, ९: ३५; माश्रौ १, ७, ५, १०.  
 प्रस्तर-पाणि<sup>o</sup>- -णिः आपश्रौ  
 २, ९, ५; वौश्रौ १, १३: १९××;  
 -णी वौश्रौ ५, ६: ४.  
 प्रस्तर-वर्हिस्<sup>p</sup>- -र्हिः आपश्रौ  
 २, १८, ३; वैश्रौ ६, ८: ९; हिश्रौ  
 २, २, २३; ७, ४, २.  
 ?प्रस्तर-वर्हिस्-विद्यति-पवित्र-न्यूप-  
 रशाना-शालाक-परिस्तरणा (ख-  
 अ)न्तर्धाना(न-श्रा)सन-शयन-  
 स्तोत्रोपाकरणा(ख-अ)र्ध- -र्धा:  
 वौश्रौ २८, १३: १०.

a) वक्त. । b) वा. क्तिवि. । c) अर्थाय कृत्यः यत् प्र. । d) पाठः? न-प्रस्तुतम् इति आपश्रौ २१, ७,  
 १० पाभे. (तु. C.) । e) सप्र. द्राश्रौ ९, २, २३ प्रस्ते इति पाभे. । f) = ऋत्विग्-विशेष- । g) पाठः? त्रा इति  
 शोधः । h) वैप १ द्र. । i) सप्र. प्रस्तरः <> प्रस्तरम् <> वर्हिः इति पाभे. । j) सपा. शाश्रु ४, १८, ५  
 लस्तरम् इति पाभे. । k) पुरस्तात् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सप्र. आपश्रौ ३, ७, ५) । l) = कट- ।  
 m) अर्थः? । n) सात्यदेवतीयः षण् प्र. । o) मलो. क्त. ।



प्रस्तर-भूय<sup>a</sup> -यम् वौश्रौ २०,  
२४: ३९; २४,३३: २२.  
प्रस्तर-मात्र- -त्रम् काश्रौ ५,८,  
२९.  
प्रस्तर-मूल- -लानि आपश्रौ २,  
९,१४; -लैः वाश्रौ १,३,३,१९.  
प्रस्तर-वत् काश्रौ ३, ७, ११;  
आपश्रौ ३, १४, ७; आपगृ ७,  
१३; वौश्र १,४,३६; मीसू ११,  
३,१०.  
प्रस्तर-हस्त<sup>b</sup> -स्तः वाश्रौ १,  
३,३,१४.  
प्रस्तरा(र-आ)दान<sup>c</sup> -नम्  
काश्रौ ३,६,४.  
प्रस्तरा(र-अ)नुप्रहरण- -णम्  
काश्रौ ४,२,४२.  
प्रस्तरि√कृ > प्रस्तरि-कृत्य  
वैश्रौ ९, ५: ९.  
प्रस्तरि-घा- -घा: वौश्रौ १,  
१९: ३७; कौसू ६,९.  
प्र-स्तार<sup>d</sup> पा ३, ३, ३२; -र:  
आपश्रु १७, ३; ९; वौश्रु ८:  
२१××; हिश्रु ५, ४२; ५२;  
-रम् वौश्रु ७: १३; १६: ६;  
-रान् आपश्रु ७, ११××; वौश्रु;  
-रे वैश्रौ १८,१६: ८२; आपश्रु  
७, ६××; वौश्रु.  
प्रस्तारिक- पा ४, ४, ७२.  
प्रस्तार-पङ्क्ति<sup>e</sup> -ङ्क्तयः अश्र  
८, २१; -ङ्क्तिः निसू १, ३:  
७; ऋश्र १, ८, ६; २, १,

१६४××; शुश्र; अश्र २, ४;  
६; ९××; ऋप्रा १६, ६०;  
उनिसू १: ४३; पि ३, ४१;  
-क्ती ऋश्र २, १, ८८; १०, १३२;  
अश्र १४, २.  
प्रस्तारपाङ्क्ति<sup>f</sup> -ङ्क्तम्  
ऋश्र २, १०, ९३.  
प्र-स्तीर्ण- -र्णम् शौच १, २४; -र्णो  
निसू १, ३: ८.  
प्र-स्तीर्य कौसू १, ३६.  
प्र-स्तृण(त>)ती- -ती अश्र ८, ७१.  
प्र-स्तोक<sup>g</sup> -कः शाश्रौ १६, ११,  
१२; ऋश्र २, ६, ४७; वृदे ५,  
१२४; १४०; -कस्य ऋश्र २, ६,  
४७; -के शाश्रौ १६, ११, ११.  
प्र-स्तोतृ- प्रश्र. प्र√स्तु द.  
प्र√स्थै > प्र-स्तीत- , प्र-स्तीतवत्- ,  
प्र-स्तीम- , प्र-स्तीमवत्- पा ६,  
१, २३; ८, २, ५४.  
प्र√स्था<sup>h</sup>, प्र-तिष्ठ आश्रौ १, १३, ७;  
शाश्रौ ४, ७, १७; काश्रौ;  
प्र...तिष्ठत हिपि १८: ४१;  
प्रतिष्ठेत वाध १०, १; प्रतिष्ठेत्  
वैश्रौ २१, ४: ७; प्रतिष्ठेयाताम्  
वैश्रु ५, १: २९; प्रतिष्ठेरन् आमिगृ  
३, ५, ५: ३; वौपि १, ४: ३.  
प्रस्थास्यति वौध ३, १, ९;  
प्रस्थास्यामि<sup>i</sup> शाश्रौ ४, ७, १६;  
काश्रौ ३, ५, १; ६, ९, ७; प्रस्था-  
स्यामः<sup>j</sup> आश्रौ १, १३, ६; आपश्रौ  
३, ४, ५××; वौश्रौ; प्र...अस्यात्

आश्रौ ८, ९, २१; प्र(अस्यात्)  
वृदे ६, १८१; प्र...अस्थु:  
आश्रौ ६, ५, २४; या ६, १६;  
प्र(अस्थुः) शाश्रौ ९, २०, ३२१.  
प्रस्थापयति आपश्रौ १, २, ४;  
भाश्रौ १, २, १५; ८, १, ११;  
हिश्रौ १, २, १६; प्रस्थापयताम्  
हिश्रु १, १८, ११; प्रस्थापयेत्  
आपश्रौ १४, ४, ९; कागृ ४५, ६.  
प्रस्थापयाम् √अस(मुवि),  
प्रस्थापयामास वृदे ५, १३६.  
प्र-तिष्ठमा(न>)ना- -नाः आश्रु  
२, १०, ५; कौश्रु ३, ५, ४; शाश्रु  
३, ९, १; हिश्रु १, १८, १; कौसू  
२१, १०; -नाम् कौसू ९२, १५;  
-नायाम् कौश्रु १, ९, १; शाश्रु  
१, १५, १.  
प्र-ष्ठ- पा ८, ३, ९२.  
प्र-स्थ<sup>k</sup> - (वप्रा.) पावा ३, ३, ५८;  
-स्थः वेज्यो ८<sup>l</sup>; -स्थम् अश्र ३३,  
३, ३<sup>m</sup>; विध ९०, १; -स्थयोः  
वौश्रौ २३, ५: १३<sup>n</sup>; -स्थान्  
वौश्रौ २६, २४: १३<sup>n</sup>; -स्थानि  
अश्र ७०<sup>o</sup>, १०, १<sup>o</sup>; -स्थे वौश्रौ  
१७, १८: ८<sup>p</sup>, -स्थेन आमिगृ  
२, ४, १०: २२.  
प्रस्थ-चतुर्भाग<sup>q</sup> -गम् आमिगृ  
२, ३, १: ११.  
प्रस्थचतुर्भाग-तण्डुल-पा  
(क>)का<sup>r</sup> -का वैश्रौ ११, ९:  
१३.

a) उप. भावे क्यप् प्र. । b) वस. । c) उप. < बा√दा (दाने) । d) = स्तर- (तह इति  
नभा.) । e) = छन्दो-विशेष- । वस. । f) विप. (सूक्त-) । तस्येदमीये अणि उप. वृद्धिः । g) वैप १ द्र. । h) पा  
१, ३, २२ परामृष्टः द्र. । i) पाभे. वैप १, २२२० ० द्र. । j) उप. कर्वाद्यर्थेषु कः प्र. । विशेष उत्तरेषु टि. द्र. ।  
k) = (L उपचारात्) प्रस्थ-परिमित-जलनिर्गमनौपधिक- ) काल-परिमाण- । l) = [द्वात्रिंशत्पलप्रमाण-] परिमाण-  
विशेष- । m) = सीमान्तरित- इति संस्कृतुः सूची । n) = क्रमावस्थित-पशु- इति संस्कृतुः टि. । o) पाठः ?  
प्रस्थानि भूतानि > स्थाने प्रभूतानि इति संस्कृतुः टि. ?शोधः । p) = खाण्डवप्रस्थ- (स्थान-विशेष-) । q) विप. ।  
वस. उप. प्रमाणे प्र. लुक् । r) कस. > वस. ।

प्रस्थ-चहस्थाली- -लीम्  
 श्रामिण्यु २,३,१: १२.  
 प्रस्थ-तण्डुल- -लैः वैगृ ५, ७ :  
 १०.  
 प्रस्थतण्डुल-पा(क>)का<sup>०</sup>-  
 -का वैश्रौ ११,९: १३.  
 प्रस्थ-पयः-पूर्(र्यो>)र्णा- -र्णा  
 वैश्रौ ११,८: ६.  
 प्रस्थ-पुर-वहा(ह-अ)न्त- -न्तात्  
 पा ४,२,१२२.  
 प्रस्थ-पूर्ण,र्णा- -र्णः वैश्रौ ११,  
 ९: १५; -र्णम् वैश्रौ ११, ८:  
 १३; -र्णा वैश्रौ ११, ९: ७.  
 प्रस्था(स्थ-अ)र्ध्व-तण्डुल-पा  
 (क>)का<sup>०</sup>- -का वैश्रौ ११,९:  
 १३.  
 प्रस्था(स्थ-अ)र्धो(र्ध-उ)दक-  
 पूर्(र्यो>)र्णा<sup>०</sup>- -र्णा वैश्रौ ११,  
 ८,५.  
 प्रस्थो(स्थ-उ)त्तरपद् पा ४,२,  
 ११०.  
 प्र-स्थान- -नात् वाश्रौ १,१,५,१४;  
 -ने वौश्रौ २०, १४: २१०;  
 आज्यो ५,२; ६,१.  
 प्रास्थानिक<sup>०</sup>- -कम् काण्ट  
 २३,१; अण्ट १८<sup>२</sup>,२,७.  
 प्रस्थान-काल- -ले विव ६३, ३९  
 प्रस्थानी(य>)या- -याम्  
 दाश्रौ १२,४,१; लाश्रौ ४, १२,  
 १; -यायाः दाश्रौ १२, २, ३२;  
 लाश्रौ ४,११,२.  
 प्र-स्थाय आश्रौ ५, ७, ३; शाश्रौ.  
 प्र-स्थायिन्- पाठ ४, ९; पाण ३,

३,३.  
 प्रस्था-वृ<sup>०</sup>- -वृ वाष २, ३४;  
 तैप्रा ३,५.  
 प्र-स्थावर्<sup>०</sup>- -वानः साण्ट १,७:  
 १२<sup>१</sup>.  
 प्र-स्थित,ता- -तः आज्यो ६, ४;  
 -तम् काश्रौ ६, ६, २५××;  
 वौश्रौ: -तस्य वौश्रौ १३, २६:  
 ११; या ७, ६; -ता या ६,  
 १६<sup>१</sup>र्<sup>०</sup>; -ताः शाश्रौ<sup>०</sup> ७, ५,  
 ११<sup>१</sup>र्<sup>०</sup>; आपश्रौ १, २, ८; भाश्रौ  
 १, २, १८; हिश्रौ १, २, १९;  
 वैताश्रौ १९,२०<sup>१</sup>; -तान् शाश्रौ<sup>०</sup>  
 ७, ५, १९; १७, १५××;  
 काश्रौ: -तानाम् शाश्रौ १०, ७,  
 ७<sup>१</sup>; १४, ५२, २××; आपश्रौ  
 १, २, ५; हिश्रौ १, २, १८;  
 -तानि या ६, १६; -ताम् जैगृ  
 १,२२: १; -तायाः अष ३५,१,  
 ३<sup>१</sup>; -तेषु वौश्रौ १६, ३: २८;  
 हिश्रौ ८, ७, ५; -तैः हिश्रौ ९,  
 ३,४८; वैताश्रौ १९, ५.  
 प्रस्थित-याज्या<sup>०</sup>- -ज्याः आश्रौ  
 ५, ५, १८; वैताश्रौ २१,२१<sup>१</sup>;  
 निसू ३, १: २४; -ज्यानाम्  
 आश्रौ ८,१,१; वैताश्रौ ३१,२७;  
 -ज्यामिः आश्रौ ५,५,१५; निसू  
 ३,१: २६; -ज्यासु आश्रौ ५,५,  
 २०.  
 प्रस्थितयाज्या-होम- -मान्  
 वैताश्रौ २२,२१.  
 प्रस्थित-होम- -मान् वैताश्रौ  
 २१,२२.

प्र√स्ना, प्रस्नायात् जैगृ १,१६: ५;  
 १७: ५.  
 प्र-स्नातृ- -तारौ या ६,१७.  
 प्र-स्नैय- -याः या १, ९<sup>३</sup>; -यात्  
 काश्रौ २०,२,१३.  
 प्र√स्निह् > प्र-स्निग्ध- -ग्धे अण  
 ६३, १,८.  
 प्र√स्तु, प्रस्तौतु वौश्रौ ८, १०: १<sup>१</sup>.  
 प्र-स्तवन- -ने वौष १,५,४९.  
 प्र-स्तु(त>)ता- -ता जैश्रौ ३:  
 १९; २१××; -तायाम् वैश्रौ  
 १६,१२: २२.  
 प्र√स्फुर > प्र-स्फुरत्- -रन्तः अण  
 ६४,६,१०.  
 प्र√स्मि, प्रस्मयते या ९,१४.  
 प्र√स्यन्द्, प्रस्यन्देर्न् आण्ट २, ७,  
 १२; ४,१,१५.  
 प्रस्त्वन्दिरे या २,१६.  
 प्रो (प्र-उ) अस्यान् ऋअ २,  
 ९,८९<sup>१</sup>.  
 प्र (अतिप्यदत्) ऋअ २, ९,  
 ७८<sup>१</sup>.  
 प्र-स्यन्दिन्- -न्दिनि गौघ १६,४२.  
 प्रस्यन्दिनी- -न्याम् आपश्रौ  
 १६, ९, ८; वैश्रौ १८, ७: १०.  
 प्र-स्त्र- प्र√स्त्र द.  
 प्र√स्त्र > प्र-स्त्रस्य आपश्रौ १४,  
 २२,१; २; वैश्रौ: हिपि २: १३<sup>१</sup>.  
 प्र-स्त्रक्ष्यमाण- प्र√स्त्र द.  
 प्र-स्त्रप्स्यत्- प्र√स्त्र द.  
 प्र-स्त्रव- प्रमृ. प्र√स्त्र द.  
 प्र-स्त्रवै प्र√स्त्र द.  
 प्र-स्त्राव-, च्य प्र√स्त्र द.

a) वस. । b) पत्न. > कस. > वस. । c) = कर्मावसाने इति संस्कर्तुः टि. । d) = कर्म-विशेष- ।  
 तदस्यप्रयोजनमित्यर्थे ठञ् प्र. (पा ५, १, १०९) । e) वैष १ द. । f) पाभे. वैष १, २२२० द द. ।  
 g) = (तदाख्य-) सोमचमस- । h) पाठः? एतान् इति शोधः (तु. उत्तरं अलम्, C. च) । i) पाठः?  
 एवान् इति शोधः (तु. C.) j) = (सोमचमसपानार्था-) याज्या- । k) मलो. कस. । l) ज्या इति पाठः?  
 यानि. शोधः [तु. C.] । m) पाभे. पृ १७३३ f द. ।

प्र√सु, प्रसुवन्ति आपथौ ४,४,४;  
 वौश्रौ; कौसु ९, २<sup>a</sup>; ४२, १४<sup>a</sup>;  
 अप ३२, १, २६<sup>a</sup>; अथ ६, २४<sup>a</sup>;  
 प्रसुवेत् अप ६४, ८, १.  
 प्रसुवयति आपथौ ५, ५, ५;  
 हिश्रौ २, ४, ४२; १०, २, ३०;  
 प्र(सुवयन्ति) ऋअ २, ९, १६<sup>†</sup>.  
 प्र-सुव- -वे विध २२, ४९.  
 प्र-सुवण<sup>b</sup>- -गम्<sup>c</sup> आथौ १२,  
 ६, २७; शाथौ १३, २९, २०;  
 आपथौ २३, १३, ४; ५; हिश्रौ  
 १८, ४, ३९<sup>२</sup>; -णानि<sup>d</sup> काठश्रौ  
 ७; माथौ १, २, १, ६; लाश्रौ  
 ९, २, २८<sup>f</sup>; कागुड ४६: ४;  
 -णे<sup>e</sup> वौश्रौ १६, २९: १६; ३०:  
 ८; वाध २८, ८<sup>g</sup>; शंघ १७७<sup>h</sup>;  
 -णेन माथौ १, ३, २, २०<sup>o</sup>;  
 -णेभ्यः वैगु ६७: १३<sup>h</sup>; मागु  
 २, १४, २४<sup>h</sup>; -णेषु विध ८५,  
 ५७<sup>h</sup>.  
 प्रासुवण<sup>i</sup>- -गम् लाश्रौ १०,  
 १७, १२; १७, १४<sup>d</sup>; -णे काथौ  
 २४, ६, ७<sup>d</sup>.  
 प्रसुवण-देवखात-सुरोवर- -रेषु  
 विध ६४, १६.  
 प्र-सुवन्- -वत् विध ६४, १७.  
 प्र-सुव- पा ३, ३, २७.  
 प्र-सुवय हिगु १, १४, २; द्रागु ३,  
 ४, १९.  
 प्र√स्वप् > प्रस्वापयान् √क्षस्,

प्रस्वापयामास वृदे ६, १३.  
 प्र-सुप्त- -प्ता: अप १, ८, १०.  
 प्र-स्वाप- > °स्वापो(प-उ)त्यान<sup>1</sup>-  
 -नम् शंघ २४९.  
 प्र-स्वापि(न् >) नी<sup>६</sup>- -न्यः ऋअ  
 २, ७, ५५; वृदे ६, २.  
 प्र√स्विद्, प्रस्विद्यन्ते अप ७०<sup>३</sup>, ८,  
 ३; प्रस्विद्यन्ति अप ७२, ४, ४.  
 प्र√स्वृ, प्रस्वरति ऋप्रा १५, ५;  
 प्रस्वरेत् द्राश्रौ ३, ४, २<sup>†</sup>.  
 प्र-स्वार<sup>1</sup>- -रः ऋप्रा १५, ५.  
 प्र√हन्, प्रहन्ति आपथौ २०, ३, १२;  
 वौश्रौ १५, ५: २९; हिश्रौ १४,  
 १, ३३; प्र (जहि) अथ १२, ५  
 (६)<sup>†</sup>; प्रहण्यात् हिश्रौ १४, १,  
 ३४.  
 प्रधान् आपथौ ६, २१, १<sup>††</sup>.  
 प्राधानि पावा ८, ४, २.  
 प्र-घण-, प्र-घाण- पा ३, ३, ७९.  
 प्रघाण-रूप<sup>††</sup>- -पाणि हिश्रौ ७,  
 १, ३१.  
 प्र-घात- -तः भाशि ३८<sup>†</sup>.  
 प्रघात-कम्प-निर्घात- -ता: अप  
 ६४, ५, ९.  
 प्र-हर-, °रण- प्रसु. प्र√हृ द्र.  
 प्र-हर्ष-, °र्षित- प्रसु. प्र√हृप् द्र.  
 प्र√हृस्, प्रहसन्ति अप ७१, १०, १;  
 प्रहसेत् मागु २, १५, ६; प्रह-  
 सेयुः अप ७१, १३, १.  
 प्र-हसत्- -सन् अप २४, ४, २.

प्र-हसन- पाग ८, १, २७; -ने पाग  
 १, ४, ७४<sup>o</sup>.  
 प्रहसने√कृ पा १, ४, ७४.  
 प्र-हास- -से कप्र १, २, १३; पा १,  
 ४, १०६; ८, १, ४६.  
 प्रहासो( स-उ)द्वीक्षण-क्रिया-  
 -या अप ६४, ६, २.  
 प्र-हस्त<sup>p</sup>- -स्तम् जैगु १, २१: १.  
 प्रहस्त-मात्र- -त्राणि काठश्रौ ७;  
 कागुड ४६: ४.  
 प्रहस्तक<sup>q</sup>- -कः शांश्रौ १८, ४, ८; ५,  
 ९; ११.  
 प्र√हा(त्यागे), प्रजहाति वौश्रौ ६,  
 २८: २२.  
 प्रहासीत् आपथौ ६, २५, २<sup>†</sup>;  
 ९, ७, ६<sup>g</sup>; वौश्रौ २४, ३०:  
 २१<sup>†</sup>; माथौ ६, ५, ५<sup>†</sup>××; हिश्रौ  
 ६, ७, ५<sup>†</sup>××; कागु; प्रहासी:  
 आथौ २, ५, ७<sup>†</sup>; ३, १२, ७<sup>o</sup>;  
 माथौ १, ६, ३, १८<sup>†</sup>; वैश्रौ.  
 प्रहायते आग्यो १२, ८.  
 प्र-जहित<sup>r</sup>- -तम् लाश्रौ २, २, २२<sup>h</sup>;  
 -तेषु वौश्रौ २६, ३२: १<sup>v</sup>.  
 प्राजहित<sup>r</sup>- -तः शुअ १, ३४८;  
 -तम् आपथौ ११, १५, १; २१,  
 ३; १३, २५, ३; वैश्रौ १४, १३:  
 ९××; हिश्रौ ७, ८: ६३; १०,  
 ३, ४२<sup>h</sup>; जैश्रौ; द्राश्रौ ४, २,  
 १३<sup>h</sup>; -तस्य मीसु १२, १, १३;  
 -तात् वैश्रौ १०, १३: ४.

a) पामे. वैप १, २२२१ । द्र. । b) भाप., नाप. । विशेषः उत्तरेषु टि. द्र. । c) = (।सरस्वत्याः।) उद्गम-स्थान-  
 [=प्लाक्ष-।) । d) सप्र. प्रसुवणम् <> प्रासुवणम् <> प्रासुवणे इति पामे. । e) = प्र-सेक- ।  
 f) = लोमन्- । g) = दुग्ध-प्रक्षरण- । h) = निर्भर- । i) स्वार्थे अण् प्र. । j) समाहारे द्रस. । k) = ऋच्- ।  
 l) = ओंकार-शब्द- । m) पामे. वैप १, २११६ । द्र. । n) वस. । o) तु. पाक्व. । p) नाप. । प्रास. ।  
 q) वैप २, ३खं. द्र. । r) पामे. वैप २, ३खं. प्रहासीत् तैत्रा १, २, १, २७ टि. द्र. । s) पामे. वैप १, २२२२ ७  
 द्र. । t) = (।पानीशाल-। अग्नि-। तु. भाष्यम्, म. मा ५, ३३ च।) । u) सपा. प्र° <> प्रा°  
 इति पामे. । v) = प्रपकेषु (यवेषु) इति संस्कृतुः टि. । w) °जि° इति पाठः ? यनि. शोधः ( तु  
 आपथौ. प्रसु. ) ।

प्र-हास्यत्-स्यन्तः वौश्रौ ६, २९ : २२.  
 प्र-हीण- -णः नाशि १, १, ६; -णम् गौघ ३, १९.  
 प्रहीण-द्रव्य<sup>a</sup>- -न्याणि वाध १६, १९.  
 प्रहीण-स्वामिक<sup>b</sup>- -कानि शंघ ३०१.  
 प्र.√हा (वधा.), प्रजिहीते शांश्रौ १२, १७, ११<sup>c</sup>.  
 प्रजिहाति सु ३१, २.  
 प्रहापयति<sup>d</sup> माश्रौ १, ८, १, १०; वाश्रौ १, ६, १, १२; वैश्रौ.  
 प्र-हाण- -णः शांश्रौ ५, १६, ४<sup>e</sup>; -णम् माश्रौ १, ८, १, ४<sup>f</sup>; -णाः माश्रौ २, ३, ६, १.  
 प्र-हा<sup>g</sup>- -हाम् अत्र ७, ५०<sup>h</sup>.  
 प्र-हार- प्रभृ. प्र.√ह द्र.  
 प्र.√हि (गतौ), ङप्र (हिषे) शांश्रौ ६, ४, ५; ऋअ २, ७, ७.  
 प्रहिणोति आपश्रौ ५, १५, ३; १७, ८; १८, २२, ३; वौश्रौ; प्रहिष्वन्ति आपश्रौ २१, ४, ४; ङप्रहिणोमि आश्रौ ३, ११, ६; शांश्रौ ४, ११, ६; आपश्रौ; पागृ १, ३, १४<sup>i</sup>; प्रहिष्वः आपश्रौ १०, १२, ४; हिश्रौ १०, २, ४३<sup>j</sup>; प्रहिन्वः सु ६, ५; ङप्रहिणुवात् आमिगृ ३, ६, १ : ३; वौषि १, ८ : ३; ङप्रहिणुत् आमिगृ ३, १, १ : १०; भागृ २, ११ : १०; हिगृ २, १०, ६; ङया ६, २२; ७, २०; १२, ५; प्र...हिनोत् या

: ७, २०<sup>k</sup>; प्र (हिनोत्) ऋअ २, १०, १०८<sup>l</sup>; वृदे ८, ८८; प्र... हिनव > वा ऋप्रा ६, १५; प्राहिणोत् वृदे ८, २५; प्राहिन्वन् सु १२, ४; प्रहिणुयात् आपश्रौ ६, १५, ११; वौश्रौ १३, १० : ५; हिश्रौ.  
 प्राहैषीत् वौश्रौ २२, २१ : १०; २३, २ : ८.  
 प्र-हित, ता- -तः काश्रौ १४, ५, ३०; १५, ७, २४; सु ८, २; भागृ २, १७, १<sup>m</sup>; -तम् वाधूश्रौ ३, ६९ : ९; ११; १३; वृदे ६, १५०; -ता या ११, २५; -ताम् ऋअ २, १०, १०८; वृदे ४, २५.  
 प्रहितं-गम- -गम् पागृ ३, १५, १९.  
 प्र-हित्य वौश्रौ १३, १० : ७.  
 प्र-हि- पाठ ४, १३५.  
 प्रहिण<sup>n</sup>- -णः याशि २, ७८.  
 प्र-हित- प्र.√धा द्र.  
 प्र.√हु (दाना<sup>o</sup>), प्रजुहति वाश्रौ ३, ४, २, २.  
 प्रहावयति आपश्रौ १५, ११, १; वैश्रौ १३, १३ : २.  
 प्र-हुत<sup>p</sup>- -तः वौश्रौ २४, ४ : २; कौगृ १, १, ३; ६, ७; शांश्रौ; -ताः आगृ १, १, २; -तानाम् कागृ १३, ५.  
 प्रहुता(त-अ)नुकृति- -तिः वौगृ ३, ५, १.  
 ङप्र-हुति- -तिम् आश्रौ २, २०, ४; ३, ८, १.

प्र.√ह, प्रहरति काश्रौ २, ६, ९; ३४xx- आपश्रौ; प्रहरन्ति वौश्रौ ६, ३० : २०; १४, ३ : ६; वाधूश्रौ ४, १६ : ७; ङप्रहरामि काश्रौ ९, ४, ११; वैश्रौ १५, ११ : १५; सु २७, १; प्रहरासि वौश्रौ १५, ५ : २८<sup>q</sup>; प्रहर ङकौसृ ४६, ५३; ५४; ङप्रहराम<sup>r</sup> पागृ १, ४, १६; कागृ २५, २२; या ३, २१; प्र... अहरन् वाधूश्रौ ४, ६४<sup>s</sup> : १; प्रहरेत् आज्यो १०, ५; प्रहरेत् आश्रौ १२, ६, ७; आपश्रौ; प्रहरेयुः माश्रौ ५, १, ६, ४; वैश्रौ २०, २२ : ४; द्राश्रौ ६, ३, २०; ताश्रौ २, ११, १४; ङप्रहरेम<sup>t</sup> आपमं १, ११, ६; आमिगृ १, ५, ३ : १२; वौगृ १, ७, ४४; भागृ १, १५, १५; हिगृ १, २०, २; जैगृ १, २१ : १३.  
 ङप्र (हर्मिं) आश्रौ ७, ४, ८; शांश्रौ १२, ४, १७.  
 प्रहरिन्यति वाध २७, ६; प्रहाः<sup>u</sup> तैप्रा ८, ८.  
 प्रहियते वाधूश्रौ ४, ३२ : १४.  
 प्र...हारयन्ति हिगृ १, २२, १; प्र...हारयेत् आपगृ ५, १२.  
 प्र-हर<sup>v</sup>- -रे कप्र २, ६, ७.  
 प्र-हरण- -णः<sup>w</sup> आपश्रौ २, २, १; -णम्<sup>p</sup> पा ४, २, ५७; ४, ५७; -ङणेन<sup>p</sup> अप ३६, १, ६-११. :  
 प्रहरण-शेष- -शः काश्रौ २, ६, १३.  
 प्रहरणा(ण-आ)दि- -दि काश्रौ

a) मलो. कस. पूष. = प्रहीणस्वामिक- b) वस. । c) धा. गतौ वृत्तिः । d) धा. वर्धापने वृत्तिः । e) अर्थः? । = कुवक्र- इति भाष्यम्, = प्रणत- इति ८. (तु. शांत्रा २८, २) । f) पाभे. पृ ५७५ g द्र. । g) वैप १ द्र. । h) पाभे. वैप १, २२२२ m द्र. । i) ण्यः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ.) । j) = रज- विशेष- [= अतुनासिक-] । व्यु. ? । k) = पाक्यज्ञ-विशेष- । l) पाभे. वैप १, २२२३ r द्र. । m) पाभे. वैप १, २२२४ d द्र. । n) = याम- । अधिकरणे घः प्र. । o) = मन्त्र-विशेष- । p) = आयुध- ।

२, ६, १४.  
 प्रहरणा(ण-अ)र्थ- र्थेभ्यः पावा  
 २, २, ३६.  
 प्र-हरत्- -रन् आपश्चौ ७, १३, ५;  
 वीश्चौ ४, ५ : १३; वैश्चौ.  
 प्र-हरिष्यत्- -ष्यन् काश्चौ ९, ४,  
 १३; माश्चौ ७, १०, ४; वाश्चौ.  
 प्र-हार- > ०-दान- -ने विधय, ६९.  
 प्रहारो(र-उ)द्यम- -मे शंघ ३१५  
 प्र-हत्, ता- -तः वाधुश्चौ ४, १६ :  
 १; ८<sup>३</sup>; -तम् काश्चौ २५, २,  
 १७; वैश्चौ २०, ७ : १; वैताश्चौ  
 ८, १०; -ता वाध १७, ७३;  
 वीध ४, १, १७; -तान् वैश्चौ ७,  
 ७ : ११; १०, २१ : १५; -ते  
 वैताश्चौ २, ४; -तेषु आपश्चौ  
 १३, १७, १; वैश्चौ १६, २० : ९;  
 हिश्चौ ५, १, ३३ × x.  
 प्र-हृत्य शाश्चौ १७, ७, ११; काश्चौ.  
 प्र-हियमाण, णा- -णम् काश्चौ २५,  
 २, १६; आपश्चौ ४, १२, ७;  
 वीश्चौ; -णाभ्याम् काश्चौ ५, ४,  
 ७<sup>१</sup>; -णाय शाश्चौ ३, १३,  
 १७; काश्चौ; माश्चौ ५, १, ३, ३<sup>१</sup>;  
 -णासु हिश्चौ १४, २, ३२; -णे  
 आपश्चौ ४, ९, ६; १२, ८; माश्चौ;  
 -णेभ्यः काश्चौ १७, ३, ३१;  
 -णेषु माश्चौ १, ४, २, २०; वाश्चौ  
 १, १, ४, ५; हिश्चौ ६, ३, १९.  
 प्र-हृत<sup>b</sup>- (> प्राहृतायन- पा.) पाग  
 ४, १, ११०.

प्र√हृष्, प्रहृष्येत् वीपि ३, १, २.  
 प्रहृष्य अप १७, २, १३<sup>१</sup>; प्रहृष्य-  
 येत् विध ७१, ६३.  
 प्र-हृष्य<sup>c</sup>- -र्षम्<sup>d</sup> माय २, ६, ७<sup>e</sup>;  
 -र्षान् काय ५७, ६<sup>१</sup>.  
 प्र-हृषित-> ०-मनस्- -नाः वृदे  
 ६, ६०.  
 प्र-हृषिन्- -र्षिणः आपश्चौ १२,  
 ११, ९; हिश्चौ ८, ३, २७; चाअ  
 ३० : १३.  
 प्र-हृष्ट, ष्टा- -ष्टः अप ६८, ४, २; वृदे  
 ४, ३; -ष्टा विध ९९, १; आज्यो  
 १२, १०; -ष्टे विध ९९, ११; १७.  
 प्रहृलि- पाउय ४, ११८.  
 प्र√ह्लाद् > प्र-ह्लाद-> प्राह्लादि<sup>f</sup>-  
 -दिः वीध २, ६, ३०.  
 प्रह्लाद-तनय- -यान् वृदे ७, ५३.  
 प्र√हृ<sup>g</sup> > प्र-हृ<sup>h</sup>- पाउ १, १५३; -हृः  
 आश्चौ ३, १, २०; आपश्चौ १२, ११,  
 २; २७, १३; काठश्चौ; -हृम् वृदे  
 ८, ४; -ह्लाः काश्चौ ९, ६, ३१;  
 आपश्चौ १२, १६, १७; वैश्चौ १५,  
 १९ : ३; हिश्चौ ८, ४, ४५; -ह्ले  
 शाश्चौ १७, ५, ५; शांय १, ८,  
 २१<sup>i</sup>; -ह्लेण कप्र १, १, १०.  
 प्रहृ<sup>j</sup>√कृ > प्रहृ-कृत्य कौय १,  
 ४, ५<sup>k</sup>.  
 प्र√ह्ले, प्र-ह्ले या २, २५<sup>१</sup>.  
 प्रहृयसे कौसू १२७, ७; या ३,  
 १०; १०, ३६.  
 प्र√प्रा पाधा. अदा. पर. पूरणे, प्राति<sup>l</sup>

प्रअप ४८, १३; १४.  
 प्राउग- प्रउग- द्र.  
 प्राकट्य- प्रकट- द्र.  
 प्राकरणिक- प्र√कृ द्र.  
 प्राकर्षिक- प्र√कृप् द्र.  
 प्राकाभ्य- प्र-काम- द्र.  
 प्रा-कार- प्रमृ. प्र√कृ द्र.  
 प्रा-काश- प्र√काश् द्र.  
 प्राकृत- प्रमृ. प्र√कृ द्र.  
 प्राकृतायन- २प्रकृत- द्र.  
 प्राकृती- प्र√कृ द्र.  
 प्रागद्य- प्रगदिन्- द्र.  
 प्रागहि<sup>1</sup>- > प्रागहीय<sup>m</sup>- -यम् शाश्चौ  
 ४, २, ११.  
 प्रागाथ- प्रमृ. १, २प्रागाथिक-  
 प्र√गा द्र.  
 प्रागापरमेत्यरंकृतनुक्रम- -मेण  
 अश्रु ८.  
 प्रा(प्र-अ)प्र<sup>n</sup>- -प्रम् या ३, १७.  
 प्राग्र-तम- -मम् कौसू ८९, ८.  
 २प्रा(प्र-अ)प्र<sup>o</sup>- -प्रम् अप २३, ४, २.  
 प्राग्वंशि<sup>p</sup>- -शयः वीश्चौ १७ : २.  
 प्राङ्क्य<sup>q</sup>- > ङ्क्य-पृष्ट<sup>r</sup>- -ङ्कौ  
 कुसू २, १३ : ७.  
 प्रा(प्र√अ)च्, ङच्, प्राञ्चयति या  
 १४, २३.  
 प्रा(प्र-अ)च्, ङच्- प्राक् आश्चौ  
 १, २, २४; १०, ६ × x; शाश्चौ;  
 काश्चौ ९, ४, १८<sup>१</sup>; वीश्चौ ७, ६ :  
 ९<sup>१</sup>; माश्चौ २, ३, ४, ४<sup>१</sup>; वैश्चौ  
 १२, ११ : १<sup>१</sup>; १४, १० : ४<sup>१</sup>;

a) णाय इति पाठः ? यनि. शोधः । b) व्यप. । व्यु. ? । c) = हेपारव- । d) प्रा<sup>o</sup> इति वसं. ।  
 e) परस्परं पाभे. । f) = घातादिक- इति देवपालः, = क्रोश- इति आदित्यदर्शनः । g) = कपिल- [असुर-] ।  
 h) उप. ङः प्र. उसं. ( तु. P.W. प्रमृ.; वैतु. पासि [३, २, ३] शक. < प्र√ह्ले इति, पाउय प्र√हा [ल्यागे] इति ) ।  
 i) सपा. प्रह्ले कृत्वा <> प्रहृीकृत्य इति पाभे. । j) वैप १, २२२४ ङ द्र. । k) घा. दाने  
 वृत्तिः । l) = आचार्य-विशेष- । m) तस्येदमीयः छः प्र. । n) प्रास. । o) वस. । p) व्यु. ?  
 < प्र√अङ्क इति ? । q) = पडह-विशेष- । वस. । r) = प्राची-दिश- । s) सप्र. प्राक् <> प्राङ्  
 इति पाभे. ।

१५, ११: १२<sup>क</sup>; १२, ६: १५<sup>द</sup>;  
 हिश्रौ ८, ३, ७<sup>क</sup>; जैश्रौ ३: ६<sup>क</sup>;  
 आगृ २, १, ९<sup>क</sup>; ३, २, २<sup>क</sup>; पागृ  
 १, ३, २४<sup>क</sup>; ८, १०<sup>क</sup>; आम्रिगृ  
 १, ३, ३: १०<sup>क</sup>; २, ४, ९: १२<sup>क</sup>;  
 ५, १: १९<sup>क</sup>; कौत् १, १३<sup>क</sup>; वाघ  
 ३, २६<sup>क</sup>; या २, २२; १२, १३;  
 पा १, ४, ५६; ८०; २, १, ३<sup>क</sup>;  
 प्राङ् शश्रौ ३, १३, ३०; ४,  
 ३, ७<sup>क</sup>; १७, ७, ११<sup>क</sup>; काश्रौ;  
 आपश्रौ १०, १५, ९<sup>क</sup>; जैश्रौका  
 २४<sup>क</sup>; या १४, २३<sup>क</sup>; याशि  
 २, ८<sup>क</sup>; ४१; प्राच: ऋश्रौ<sup>क</sup> ७,  
 ४, ७; ८, ३, २; शाश्रौ; द्राश्रौ  
 १०, २, ५; वैताश्रौ ३२,  
 १३<sup>क</sup>; शागृ ६, ५, ६<sup>क</sup>;  
 ऋअ २, १०, १३१<sup>क</sup>; प्राचा  
 वौश्रौ १, १९: ११; २, १७:  
 ३०<sup>क</sup>; हिश्रौ ४, २, ४२; ७,  
 ६, २६; प्राचाम् पा १, १,  
 ७५; २, ४, ६०<sup>क</sup>; पावा ७,  
 ३, ४५; मीत् ११, २, ५५; प्राचि  
 हिश्रौ १७, ४, ३४; द्राश्रौ १, २,  
 २७; लाश्रौ १, २, २०; ५, ५,  
 १३<sup>क</sup>; वौश्र ४: २१; ऋप्राची  
 काश्रौ ८, ४, ३; वौश्रौ ६, २५:  
 २; वैश्रौ १४, ५: १८<sup>क</sup>; हिश्रौ  
 ७, ५, ६<sup>क</sup>; शुअ १, ३२१; तैप्रा  
 ४, ३३; प्राञ्च: आश्रौ १, १, ८;

शाश्रौ १०, २१, १६; काश्रौ;  
 लाश्रौ ३, १०, ५<sup>क</sup>; प्राञ्चम्  
 आश्रौ ३, १२, २५<sup>क</sup>; शाश्रौ;  
 आपश्रौ १८, १४, १३<sup>क</sup>; वाश्रौ  
 ३, ३, २, ४०<sup>क</sup>;  
 ?प्राञ्च हिश्रौ  
 ६, ६, १७<sup>क</sup>; प्राञ्चि आश्रौ  
 २, १९, ४; काश्रौ १, ७, २४<sup>क</sup>;  
 ६, २, १८; निस् १, ५: ८; २२;  
 वौश्र १०: १२; प्राञ्चौ शाश्रौ  
 १, ६, १०<sup>क</sup>; काश्रौ.  
 प्राची,ञ्ची- -ञ्चि आश्रौ  
 ५, १३, १४<sup>क</sup>; -ची आश्रौ १,  
 १२, ४<sup>क</sup>; शाश्रौ; ऋप्राश्रौ १९,  
 १४, १४<sup>क</sup>; १५<sup>क</sup>; वौश्रौ १९,  
 ६: १५<sup>क</sup>; ऋश्रौ २३, ३,  
 १२<sup>क</sup>; २६<sup>क</sup>; -ची: आश्रौ ८,  
 ३, ३०; शाश्रौ ४, ११, ६<sup>क</sup>;  
 काश्रौ; आपश्रौ २१, २०, ३<sup>क</sup>;  
 वौश्रौ १६, २३: ५<sup>क</sup>; वाश्रौ  
 ३, २, ५, ४३<sup>क</sup>; हिश्रौ १६, ६,  
 ४१<sup>क</sup>; -चीभि: वौश्रौ १०, ३६:  
 १६<sup>क</sup>; आपश्रौ; -चीन् आश्रौ  
 ५, १३, १४<sup>क</sup>; ६, १४, १६;  
 शाश्रौ; या ११, ११<sup>क</sup>; -च्य:  
 काश्रौ १३, ३, २६<sup>क</sup>; वौश्रौ  
 १२, ८: ३; वैताश्रौ ३४, ९<sup>क</sup>;  
 आगृ; -च्वा शाश्रौ ४, ११,  
 ४<sup>क</sup>; आपश्रौ १७, ७, ६<sup>क</sup>; वौश्रौ;  
 माश्रौ १, ४, ३, ८<sup>क</sup>; -च्वा:

काश्रौ २५, ६, २; कौत् ४९, ७<sup>क</sup>;  
 अय: -च्वाम् आश्रौ १, १, ७<sup>क</sup>;  
 वाश्रौ ६, ३, १<sup>क</sup>; आश्रौ ४,  
 १४, ४<sup>क</sup>;  
 वौश्रौ ३, २०:  
 १२<sup>क</sup>; भाश्रौ ४, २०, ४<sup>क</sup>;  
 वैश्रौ ७, १२: ९<sup>क</sup>; जैगृ १, ४:  
 १९<sup>क</sup>; अय ४, ४०<sup>क</sup>; -च्यै  
 वौश्रौ १८, ५२: १; वौगृ २, ८,  
 ३६<sup>क</sup>; मागृ; -च्यो: काश्रौ १७,  
 ४, ११; -च्यौ काश्रौ १७, १२,  
 १५; वैश्रौ ८, ९: २<sup>क</sup>; आपश्रौ;  
 -ञ्च्यौ शाश्रौ १७, ५, २.  
 प्राची-वत् काश्र १, २१.  
 प्राची-वर्तमान- -नत्य  
 द्राश्रौ १४, १, १५<sup>क</sup>!  
 प्राची-स्थ- -स्थान् अय  
 ३, २६.  
 प्राच्य(ची-अ)न्त-  
 -न्तयो: काश्र १, ६.  
 प्राच्य(ची-अ)र्ध- -र्थ:  
 वौश्र १: १८.  
 प्राच्य(ची-ऊ)र्धा(र्ध-अ)  
 वाची- -चीभ्य: गोगृ ४, ७, ३७.  
 प्राक्-काल-> लाल(अ)  
 वहुत- -तन् काश्रौसं ३१: १.  
 प्राक्कालीन- -पागवा ४, २,  
 ११६.  
 प्राक्-दृल- -लान् वौगृ १, २,  
 ४; -लानाम् आगृ ३, २, ३;

- a) = प्राची-दिश- । b) सप्र. आपश्रौ १७, १६, १ वा इति पाभे. । c) सप्र. वौगृप १,  
 १३, २७ प्राङ्मुख: इति पाभे. । d) कचित् वा. क्विचि. । e) प्राक् इति C. शोध: ? (तु. पाभे. वैप १, २२२५ i) ।  
 f) पाभे. पृ १७४९ t द्र. । g) प्राङ् इति पाठ: ? यनि. शोध: । h) पाभे. वैप १, १९१७ l द्र. ।  
 i) सपा. ञ्चिवर्त <> ञ्चीवर्त इति पाभे. । j) पाठ: ? प्राच: इति शोध: (तु. द्राश्रौ १०, २, ५) । k) पाभे.  
 वैप १, २२२६ d द्र. । l) पाठ: ? प्राङ्, च इति शोध: (तु. सपा. मै १, ५, ४ आपश्रौ ६, १९, १) । m) सप्र.  
 प्राञ्चि <> प्राणपदगणि <> प्राङ्न्यायानि इति पाभे. । n) सपा. प्राचि <> प्राची (तैत्रा ३, ११, ९, ८ च) इति  
 पाभे. । o) पाभे. वैप २, ३६. प्राची तैत्रा ३, ११, ९, ८ टि. द्र. । p) सपा. प्राची: <> प्राच्य: इति पाभे. ।  
 q) पाभे. वैप १, २२२७ a द्र. । r) च्यम् इति पाठ: ? यनि. शोध: । s) उप. = प्रतीची- (तु. भाष्यम्) ।  
 t) तु. पागम. । u) वस. उप. = अय- ।

आग्निगृ २,६,४ : ३; -लेपु आगृ  
३, ५, ११; गोगृ ४, ५, १४;  
गौघ १, ५६.  
प्राक्-सुडुक<sup>a</sup> - कम् हिथ्रौ ११,  
७, ५५.  
प्राक्-छाय<sup>b</sup> - च्चे विध ७८, ५३.  
प्राक्-त्तन - नम् निसू ३, २ :  
१३; -नेन वैथ्रौ ११, २ : ४.  
प्राक्-तन्त्र<sup>c</sup> - न्त्रम् कौसू ६,  
३४<sup>f</sup>; अय ११, १, ४×४.  
प्राक्-त्सू<sup>d</sup> - त्त्वान् वौथ्रौ २, १ :  
२; मागृ १, ८, ३; -ले माथ्रौ  
१, ३, ४, ३; -लेपु जैगृ २, ८ : ८.  
प्राक्-त्व - त्वे वौथ्रौ २१,  
७ : ८.  
प्राक्-पश्चिम<sup>e</sup> - मम् वैगृ १,  
८ : २.  
प्राक्-पाश<sup>a</sup> - शम् आथ्रौ १,  
११, ४.  
प्राक्-प्रणीत - तेन काध २७४ :  
६.  
प्राक्-प्रवण,णा<sup>a</sup> - णम् काथ्रौ  
७, १, १३; आपथ्रौ १०, २०, १;  
वैथ्रौ १२, ४ : २; -णाम् काथ्रौ  
२, ६, १; आपथ्रौ २, २, ९; -णे  
वैगृ १, ८ : १.  
प्राक्-वास (: ) वौथ्रौ ६, २६ : ८;  
गोगृ १, ७, २३; ८, ५; कप्र १, ८,  
१४.  
प्राक्-शिरस्<sup>a</sup> - रः वैगृ ४, १० :  
१३<sup>f</sup>; -रसः पागृ ३, २, १३;  
-रसम् शांथ्रौ ४, १७, ११; काथ्रौ;  
-राः माथ्रौ २, १, ३, १०;  
वैथ्रौ १, १ : २८; आगृ.  
प्राक्-शिल्प<sup>a</sup> - ष्टः माशि ७, २<sup>h</sup>;

४<sup>g</sup>; ८, २.  
प्राक्-शिल्प-जात्य-क्षैप्र - प्राः  
माशि ८, ५<sup>f</sup>.  
प्राक्-सं(स्था)स्थ<sup>a</sup> - स्थम् काथ्रौ  
२, १, ६; ४, १५, ७; ५, ८, ३१;  
द्राथ्रौ; -स्थानि वौथ्रौ २०, १३ :  
१३; आगृ १, १०, १७.  
प्राक्-समास<sup>a</sup> - सम् द्राथ्रौ ५,  
२, ९; लाथ्रौ २, ६, ४; निसू १,  
११ : १९.  
प्राक्-सिद्ध-त्व - त्वान् शंघ ७.  
?प्राक्सौत्या काथ्रौसं ३४ : १.  
१प्राग्-अग्र - > प्रिक - कम्  
वैगृ १, ३ : ३.  
२प्राग्-अग्र, प्रा<sup>a</sup> - अग्रम् काथ्रौ  
१, ३, १६; आपथ्रौ १, १२, ३;  
२, १, ५×४; माथ्रौ; -प्राः वैथ्रौ  
११, ११ : ४; जैथ्रौका १५४;  
-ग्रान् आगृ १, १७, ११;  
आग्निगृ २, ३, २ : ५; वैगृ;  
-ग्राभिः निसू १, ११ : २३;  
-ग्राम् वैथ्रौ १४, ४ : ६; -ग्रायाम्  
शंघ ५४; -ग्रे काथ्रौ १, ३, १५;  
काठथ्रौ ४९; कौगृ १, ४, ४;  
शांथ्रौ १, ८, १६; -ग्रेषु कौगृ ३,  
३, १×४; शांथ्रौ; -ग्रेः आपथ्रौ  
१, १४, १४; ६, ३, ५; माथ्रौ;  
-ग्रौ आपथ्रौ २, ९, ५; वैथ्रौ ५,  
६ : ११; कप्र २, ५, २०.  
प्रागग्र-ता - ता शांथ्रौ ४,  
६, ८.  
प्रागग्रो(प्र-उ)दगग्र - ग्रान्  
आगृ २, ८, १५; कागृ ११, २;  
१५, ३.  
प्राग्-अन्त,न्ता<sup>a</sup> - न्तम् वैगृ

१, ११ : ५, १४ : ५×४; -न्ताः  
वैथ्रौ १, ८ : १४; वैगृ ६, १४ : ७.  
प्राग्-अपवर्ग<sup>a</sup> - र्गः वैगृ २,  
११, १६; -र्गम् आपथ्रौ २, ९,  
२; माथ्रौ; -र्गाणि आपथ्रौ २४,  
२, १५<sup>f</sup>; वौथ्रौ २, २ : १७<sup>f</sup>;  
वाथ्रौ १, १, १, ७७<sup>f</sup>; आग्निगृ १,  
२, २ : १५; हिगृ २, १९, ३.  
प्राग्-आदि<sup>a</sup> - दि<sup>f</sup> वैथ्रौ १, १ :  
११; आग्निगृ १, ६, ३ : २०; ४८;  
७, ३ : ८; वैगृ ४, १ : ४.  
प्राग्-आय ( त > ) ता - ताम्  
कागृ १८, १; कौसू १३७, ५;  
८; -ते आगृ १, ३, १; कौसू  
१३७, ३.  
प्राग्-आया(म > ) मा<sup>a</sup> - माः  
आपथ्रौ ७, ६; हिगृ २, ५४.  
प्राग्-आवृत्त - त्तः वौथ्रौ २४,  
२८ : १; जैथ्रौ १३; ११; २६ : ५.  
प्राग्-आहुति - त्तेः शांथ्रौ १, ३,  
१६.  
प्राग्-ई ( पा > ) ष<sup>a</sup> - षम्  
आपथ्रौ १, ७, ६; १७, ५×४; वौथ्रौ.  
प्राग्-उक्त - क्ते अप्राय ५, ३;  
-क्तैः वृदे २, ७१.  
प्रागुक्त(क्त-ऋ)र्षि - र्षिः  
अअ १, ११; २१×४.  
प्रागुक्त(क्त-ऋ)र्षि-गण<sup>a</sup> -  
-णम् अअ २, १०.  
प्रागुक्त(क्त-ऋ)र्षि-छन्दो-  
देवता - > वत्व - त्यम् अअ  
७, ९२.  
प्राग्-उत्तरा(र-अ)ग्र<sup>1</sup> - ग्रम् -  
वैथ्रौ २, १ : १५; वैगृ १, १० :  
१२; -ग्रान् वैगृ १, १० : १४;

a) वस. । b) = प्राङ्मुखी-झाया- (तु. शक. [गजच्छाया-]) । c) कस. उप. = विधि- । d) वस. उप. अग्र-  
e) पंस. वा. किवि. । f) वा. किवि. । g) = स्वरित-विशेष- । h) प्राङ्श्लिष्टः इति संस्कर्तुः टि. । i) ०क्षैप्राणान्  
इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. संस्कर्तुः टि.) । j) पामे. पृ १७५० m द्र. । k) वस. उप. पस. । l) द्रस. > वस. ।

-औ वैगृ २,५ : ५; ३,२३: ७.  
१प्राग्-उदच्,ञ्च्<sup>a</sup> - दक्वाश्रौ  
१,१,४; २,३,१८××; आपश्रौ;  
-दञ्चः<sup>b</sup> शाश्रौ ४,१५,१; वाश्रौ  
१, ७, ४,५९; कौगृ ५, ३, २८;  
-दञ्चम् काश्रौ १६, ५, १४;  
वाश्रौ; -दञ्चि शाश्रौ ४,१९,७<sup>b</sup>;  
-द्वीचः<sup>b</sup> काश्रौ १६,३,१४; मागृ  
१,२,१,१०.

१प्रागुदीची<sup>b</sup> - ची  
आपश्रौ १,१,१०; -चीः शाश्रौ  
२,९,१४; माश्रौ; -चीम् काश्रौ  
४,२, ४; हिश्रौ १, २, ८; कागृ  
२५,४७.

प्रागुदक्-प्रवण,णा<sup>c</sup> - णम्  
शाश्रौ ५, २, २; आपश्रौ १०,  
२०,१; वौश्रौ २५,५:४; हिश्रौ;  
-णाः अप २४, १, ७; -णाम्  
आपश्रौ २,२,९; वाश्रौ २,३, २,  
१; वैश्रौ ५,१ : ५; -णे आम्रिगृ  
१,१,१ : ८; हिगृ १,१, ९; अप  
१८,१,१; २१,४,४.

प्रागुदह्-मुख<sup>c</sup> - खः माश्रौ  
१,३,१,३१; ६,२,२; वाश्रौ १,  
५,४,४; जैश्रौका ६३.

प्रागुदीचीन- नम् वाश्रौ १,  
७,४,३.

२प्राग्-उदच्<sup>d</sup> - द्भिः काश्रौ  
४,१३,१५; २६,३,९.

प्रागुदग्-अप्र<sup>e</sup> - प्राः आम्रिगृ  
१,१, १ : १२; वौगृ १, ३, ६;  
हिगृ १, १, १३; -अः आम्रिगृ

१,७,३ : ९; आपगृ १,१३.  
प्रागुदग्-अपवर्वा- नौम् कौस्  
१,१५.

२प्राग्-उदीची<sup>e</sup> - चीम्  
शाश्रौ २, ९, १४; वाश्रौ १, ५,  
२,४६; शागृ २,१२, ११; वैगृ;  
-च्याम् शाश्रौ ४,१७,३; माश्रौ  
१,७,७,४; कौगृ.

३प्राग्-उदीची<sup>d</sup> - च्योः आश्रौ  
२,४,१३.

प्राग्-ग(त>)ता- तायाः कप्र  
१,६,९.

प्राग्-गा(मक>)मिका<sup>e</sup> - काः  
वाध १९,२४.

प्राग्-गामि(न् >)नी- नी  
वाध १७,६२.

प्राग्-ग्रन्थि<sup>e</sup> - न्थि काश्रौ ५,  
८,२७.

प्राग्-ग्रीव<sup>e</sup> - वम् शाश्रौ ४,१६,  
२; माश्रौ ६, १, १, २५; वैश्रौ;  
-वाणि काश्रौ १, १०, ४; -वे  
माश्रौ १, ५, १, १७××; मागृ  
१,११,१९; १४,७.

प्राग्-(हु>)सुत-शेष<sup>f</sup> - षेण  
काश्रौ ४,२,३३.

प्राग्-(हो>)वोम- मान्  
आपश्रौ १४,१८,२.

प्राग्-ज्योतिष<sup>g</sup> - पम् शागृ  
६,२,१.

प्राग्-दक्षिण,णा<sup>b</sup> - णम् कौस्  
७१, २१; ८०, ४३××; -णा<sup>f</sup>  
आश्रौ २, ६, २; काश्रौ १६, ५,

१७; वाश्रौ १,२, ३, १; -णाम्  
कौगृ ५,२,१३<sup>b</sup>; कौस् ८४,१५.

प्राग्दक्षिण-सु (ख>)खा<sup>e</sup> -  
-खा वाश्रौ १,२,३,५<sup>l</sup>.

प्राग्दक्षिणा(ण-अ)प्र<sup>e</sup> - प्रैः  
वाश्रौ १, २, ३, ३.

प्राग्दक्षिणा-चार<sup>e</sup> - राः  
माश्रौ १,१,२,१; ७,६,१.

प्राग्दक्षिणा (खा-अच् > )  
ची<sup>h</sup> - चीम् शाश्रौ ४,१४,९.

प्राग्दक्षिणा-प्रवण<sup>e</sup> - णम्  
आगृ ४,१,७.

प्राग्दक्षिणा-मुख<sup>e</sup> - खः  
जैगृ २,१ : ११.

प्राग्दक्षिणा(णा-आ)यत-  
-तम् जैगृ २,२ : १.

प्राग्दक्षिणा (णा-आ )  
यत्तन<sup>l</sup> - ने आम्रिगृ ३, ११,  
१ : २.

प्राग्-दण्ड,ण्डा<sup>e</sup> - ण्डम् आश्रौ  
१, १३, १; शाश्रौ ४, ७, ६;  
आपश्रौ; -ण्डया शाश्रौ २, ९,  
१४; आपश्रौ ६, ११, ५; हिश्रौ  
३,७,९२.

प्राग्-द(शा>)श<sup>e</sup> - शम् काश्रौ  
७,७,९; आपश्रौ १०, २४,७<sup>m</sup>;  
-शे माश्रौ २, १, ४, ३; -शन  
माश्रौ २,२,४,२२.

प्राग्-दृष्ट-दोष<sup>n</sup> - पम् विघ ९,  
१८.

प्राग्-द्वार,रा<sup>e</sup> - रम् माश्रौ ६,  
१, १, २५; हिश्रौ ७, १; २९

a) = ईशान-कोण-। वस.। b) तात्स्थ्यात् विप.। c) विप.। वस.। d) द्वस.।

e) = विघवा-।उस. पूष. = पितृ-गृह-। f) विप.। सुप्पुपीयः समासः >पंस.। यनि. अवेग्रहः (तु. B.W. M.W.;  
वैतु. कर्कविद्याधरौ उप. हुत-शेष- इति)। g) समासान्तः वच् प्र. उसं. (पावा ५, ४,७५)। h) = आग्नेयी-  
दिश-। वस.। i) वा. क्वि.। j) सप्र. आपश्रौ १,७,१० माश्रौ १,७, ५ हिश्रौ २,७,१२ दक्षिणाप्राची  
तिष्ठन्ती इति पामे.। k) विप. (चित्ति-)। l) मलो. कस.। m) सप्र. प्राग्दशम् <>  
?प्राचीनग्रीवदशम् <> प्राचीनदशम् इति पामे.। n) तस.>वस.



शांश्च ६,२,६; काश्च; -रा वैश्रौ  
१२, ४ : ११; -रा: माश्रौ ६,  
१, ८, १०; -राणि आम्रिच २,  
६,३ : ११; अप १, २७, ३;  
१८<sup>३</sup>, २, ८; वौघ २, ५, १६; -रे  
काश्रौ १६, ३, १३; २६, १,  
१४.

प्राग्द्वार-प्रत्यग्द्वार- रेषु  
कौस् २४,३; ३४,३.

प्राग्-धातु-वचन- नम् पावा  
१,४,८०.

प्राग्-बहुव्रीहि-ग्रहण- -णम्  
पावा ५,४,६९.

प्राग्-भाग- -णम् कौस् २१,  
१८.

प्राग्-भेद<sup>a</sup> -दौ वौश्च १२ : ६.

प्राग्-याम्या(म्य-अ)पर-सौम्य-  
-म्यानाम् अप ६४,२,८.

प्राग्-रात्रा (त्र-अ) पररात्र-  
-त्रेषु शंघ ३७१; विध ९७,  
१६.

१प्राग्-वंश<sup>b</sup> -शान् वैश्रौ १४,  
११ : ६.

२प्राग्-वंश<sup>c</sup> -श: वौश्च ४ : १;

-शम् काश्रौ ७,१, १५; ८, ४,  
२१; आपश्रौ; -शस्य आपश्रौ  
१०,३,४; ११, ४, १२; वाश्रौ;  
-शात् आपश्रौ १०,७,५; माश्रौ  
२,१,२, ३३; -शाय माश्रौ २,  
२, ४, ११; -शे आपश्रौ १०,  
२१,१८<sup>१</sup>××; वौश्रौ.

प्राग्वंश-काय<sup>d</sup> -य: विध  
१, ७.

प्राग्वंश-वेदि-मान- -नानि

काश्च १,१९.

प्राग्-वचन- -नम् पावा १, ३,  
११; ४,५६××; -ने पावा ५,  
१, १.

प्राग्वचना(न-आ)नर्थक्य-  
-क्यम् पावा ५, ३, ९४; ८, २,  
८६.

प्राग्-वत् विध २१, ९; ऋञ्च २,  
८, १.

१प्राग्वत्प्रभृत्येडान्त: वैश्रौ  
१४,१८ : ९.

प्राग्-वदन<sup>e</sup> -न: जैश्रौका १७;  
३८.

प्राग्-वाहि(न् >)नी- नी  
गौपि १,५,३२.

प्राङ्-भावृत्त- -त्त: वौश्रौ ३,  
३० : ११<sup>१</sup>; -त्तस्य वौश्रौ २,  
८ : ६.

प्राङ्-उच्चार<sup>f</sup> -र: वौश्रौ २,  
२० : ४.

प्राङ्-न्याय- -यम् माश्रौ १, १,  
१,६; -यानि शांश्रौ १,१, १३;  
आश्रौ १,१, १२<sup>१</sup>; हिश्रौ १, १,  
५३<sup>१</sup>.

१प्राङ्-मुख- > ष्व-करण-  
-णम् द्राश्रौ १,२,२२; लाश्रौ १,  
२,१६.

२प्राङ्-मुख<sup>g</sup> -ख: आश्रौ १,  
१,४; शांश्रौ ४,२१, २; आपश्रौ  
६, २, १××; वौश्रौ; अप्राय १,  
३<sup>१</sup>; अप २२, ७, ५<sup>१</sup>; -खम्  
आपश्रौ १७, १९, १०; १९,  
९, १३; काठश्रौ; -खयो:  
विध ७३,१३; -खस्य वौश्रौ ६,

१ : २६××; भाग्; -खा: माश्रौ  
२,३,७,६; कौग् १,२, २; शांश्च  
१,६,४; वौग् १, २, ३; -खान्  
आम्रिच ३,११, ३ : ७; वौग् २,  
११, १५; १६; वैग्; -खानाम्  
कौस् ८२,१; -खाय जैग् १,१९ :  
३२; -खे वाश्रौ २,२, ४, १७;  
कौग् २, ७,२०; ४,१, ३; शांश्च  
२,१२,४; -खेन कप्र २,८,१२;  
-खेभ्य: विध ७३, २७; -खेषु  
विध ७३, २५; -खै: जैश्रौका  
६३३; -खौ हिग् १, २२, ९;  
विध ७३,३.

प्राङ्मुखी- -खी वैश्रौ  
१५, ७ : २; ७; आम्रिच २, ४,  
९ : ५; कप्र १,७,१; -खी: वौश्च  
१० : ३०; -खीम् माश्रौ १,  
६, १, १४; वैश्रौ ५, ३ : ४;  
-ख्या: आग् १,७, ३; कौग् १,  
८,१४;१७; शांश्च.

प्राङ्मुखा(ख-अ)प्रतस् (:)  
विध ७३,२६.

प्राङ्शायिन्- -यी काश्रौ ५,  
२,२१<sup>१</sup>.

प्राचीन,ना<sup>h</sup> -नम् आपश्रौ ५,४,  
३;६,३०, ७××; वौश्रौ; या २,  
२२; १८,९;१२; -ना काश्रौसं  
३५ : ८; -ना: वौश्रौ २४,  
३६ : ११; वाश्रौ २, १, ६, ९;  
-नान् वैश्रौ १७, १२ : २;  
-नानि अग्र ५,६; -ने वैश्रौ ८,  
५ : १२.

१प्राचीन-कण्टक<sup>i</sup> -कान्  
कौस् ३५,२३.

a) वस. । b) मलो. कस. । c) विप., नाप. (पलीशालादि- । तु. काश्च १, १९ भाष्यम् ।) ।

वस. । d) ष्वृत: इति पाठः? यनि. शोध: (तु. उत्तरं स्थलम्) । e) पामे. पृ १७५० m द. । f) उत्तरेण  
संधिरार्यः । g) पृ ११० सस्य. ङअध:शायी इति नेष्टम् (तु. देवयज्ञिकः; वैतु. MW. अध:प्राङ्शायिन्-> -यी इति) ।

h) अर्थ: व्यु. च ? । उप. = मदनी-कण्टक- इति दारिलः, = वदरी-कण्टक- इति केशवः ।

प्राचीन-क(र्ण>)र्णा<sup>अ</sup><sup>ब</sup><sup>०</sup><sup>०</sup>  
-र्णाः वौश्रौ ६, २५; १६; २७ :  
१५; वैश्रौ १४, ६; ९; -र्णाम्  
आपश्रौ ११, ९, १३; १०, १;  
वौश्रौ; हिश्रौ ७, ७, ७.

प्राचीन-कु(म्ब>)म्बा<sup>अ</sup><sup>०</sup><sup>०</sup>  
-म्बया वौश्रौ ४, २; ७; ९;  
-म्बाम् हिश्रौ ४, १, ४३<sup>३</sup>;  
आमिष्ट; -म्बे माष्ट १, ३; १२.

प्राचीन-ग्री(वा>)व<sup>अ</sup><sup>०</sup>  
-ग्रोपश्रौ १०, ८, १५; २०, १३××;  
वौश्रौ; -वे आपश्रौ ५, ५, १;  
१६, २१, २; हिश्रौ ११, ७, २;  
-वेण शाश्रौ १७, ५, ९; वौश्रौ.

प्राचीन-ग्रीवदश- -शम्  
भाश्रौ १०, १६, ६<sup>६</sup>.

प्राचीन-द (ण्ड>)ण्डा<sup>अ</sup>  
-ण्डया वौश्रौ २, १८; ३७; ३, ६ :  
२४; २०, २० : १९; भाश्रौ ६,  
१३, ८; वैश्रौ २, ५ : १०.

प्राचीन-द(शा>)शा<sup>अ</sup>  
-शम्<sup>६</sup> वौश्रौ ६, १४ : ९; वैश्रौ  
१२, १७ : १४; हिश्रौ ७, २, ३९;  
-शेन वौष्ट १, ८, ६.

प्राचीन-पुष्क(र>)रा<sup>अ</sup>  
-राः वौश्रौ २०, १६ : ७; ९<sup>१</sup>;  
-रे वौश्रौ २०, १४ : १०.

प्राचीन-प्रवण,णा<sup>अ</sup> - -णम्  
शाश्रौ ५, २, १; आपश्रौ ५, ४,  
१<sup>१</sup>; भाश्रौ ५, २, ११; माश्रौ  
२, १, १, ३; हिश्रौ १०, १, २२;

-णाम् वैश्रौ ५, १ : ५; -जे  
काश्रौ ५, १, १६; आपश्रौ.

प्राचीन-प्रसुत- -तानि काष्ट  
७२, १.

प्राचीन-प्रोष्ठप(द>)दा<sup>अ</sup>  
-दयोः अप १, १०, ८.

प्राचीन-बिल<sup>अ</sup> - -लम् वौश्रौ  
९, १० : ३३; ११ : २५××;  
वैश्रौ १३, १४ : ५; १३; -लौ  
वौश्रौ ९, ५ : २७.

प्राचीन-मातृक<sup>अ</sup> - -कम् माश्रौ  
२, १, १, ३४.

प्राचीन-मात्र<sup>अ</sup> - -त्रम् भाश्रौ  
१०, ६, ८; -त्रा<sup>अ</sup> आपश्रौ  
१०, ९, ११.

प्राचीन-मुख<sup>अ</sup> - -खम् वैश्रौ  
१८, १८ : १०.

प्राचीन-योग<sup>अ</sup> ( > ) योग्य-  
पा.) पाग ४, १, १०५; -ग्याः  
वौश्रौप्र ४ : १; चञ्चू ३ : ७<sup>१</sup>.

प्राचीन-रात्र<sup>अ</sup> - -त्रे वाश्रौ  
१, ७, ३ : २०.

प्राचीन-वंश,शा<sup>अ</sup> - -शम्  
आपश्रौ १०, ५, १; ११, ९, ४;  
भाश्रौ १०, ३, १; माश्रौ; -शा  
वौश्रौ ६, १ : १०; -शाम् वौश्रौ  
१५, १ : ११; २५, ५ : ५; वैश्रौ  
१२, ४ : ९; ५ : ६.

प्राचीन-शिरस<sup>अ</sup> - -रसम्  
वौश्रौ २०, २८ : १६.

प्राचीन-स्तोम- -माः वौश्रौ

१८, ४२ : ७.

प्राचीन-हरण- -गात् आश्रौ  
३, ११, १०.

प्राचीना(न-अ)ग्र,ग्रा<sup>अ</sup> - -ग्रम्  
वौश्रौ १, ३ : १२; ४, ६ : ५५;  
-ग्राः आमिष्ट १, ७, ३ : ३;  
-ग्राणि वौश्रौ ९, १ : ११; १०,  
३ : १०; -ग्रान् वैश्रौ १८,  
१ : ३३; -ग्राम् वैश्रौ १४,  
१० : ९; -ग्रे आमिष्ट २, ४, ६ :  
६; -ग्रेषु वैश्रौ १३, १ : १३;  
-ग्रेः शाश्रौ १७, १०, १४.

प्राचीना(न-अ)पवीत<sup>अ</sup> ->  
पतिन्- -त्ति शाश्रौ १, १, ७; ३,  
१६, ११.

प्राचीना(न-अ)र्थ- -र्थस्य  
अप १, ३५, २.

प्राचीना(न-अ)ववीत<sup>अ</sup> -  
-तम् माश्रौ २, ५, २, ४; -तानि  
माश्रौ १, ७, ६, २७; ३८; २, ५, १,  
३६.

प्राचीनाववीतिन्- -तिनः  
माश्रौ २, ५, १, ३५; -ती माश्रौ  
२, ५, २, ३.

प्राचीना(न-अ)वीत<sup>अ</sup> - -तम्  
वौश्रौ ३, १० : ६; १८××; वाधुश्रौ  
३, ९१ : ६; वैश्रौ १८, ३ : ७;  
हिश्रौ १०, ५, ९; आमिष्ट १,  
६, २ : ४××; वौष्ट २, ११, ४९;  
माष्ट २, ११ : २; हिपि १८ : १३;  
अप्राय ६, ७; -तानि आपश्रौ ८,

a) वस. । b) उप. = छुद्रशाखामूल- इति भाष्यम् (हिश्रौ.) । c) उप. = रकुम्ब- । d) पाभे.  
१७५२ m द्र. । e) = पूर्वा-प्रोष्ठपदा- । f) विप. (क्षौम- [= क्षौम-वस्त्र-]) । वस. । उप. अर्थः व्यु. च? । C.  
(आपश्रौ. [तु. h]) = दशा- (प्रान्तभाग- [तु. उद्दीचीन-दश-] इति) ? । भाप. (वन्धनप्रन्थि-) इति कृत्वा (√वध् [वन्धने]  
> भावे) \*वध्- > [स्त्रार्थे] \*वध्- > नैप्र. मातृक- इति मतम् ? । g) -त्रम् इति क्विप्. । वस.  
उप. नैप्र. < \*वध्- इति विशेषः । शेपं f द्र. । h) पाठः ? -त्रम् इति शोचः (तु. भाश्रौ.; वैतु. C. तृ१ < मातृ-  
इति कृत्वा वि. इति ?) । सत्य. √दीम् इत्यस्य वसने वृत्तिः ? । i) = ऋपि-विशेष- । व्यु. ? । j) नाप. (सामन्- ) ।  
k) तस. (पा २, २, १) । l) = राग्र-वंश- । m) वैप १, २२२७ k द्र. । n) वैप १ द्र. ।

१५, १, १६, १५१; वौश्रौ.  
प्राचीनावीतिन्- -तिनः  
आश्रौ २, १९, १६; काश्रौ १२,  
३, १७; आपश्रौ; -तिना आमिष्ट  
३, ७, ४ : ३३; ३४; आपश्रु; -ती  
आश्रौ २, ३, २१××; काश्रौ;  
वैश्रु ६६ : ८<sup>१</sup>।

प्राचीनौ( न-औ)द्वज्जि<sup>b</sup>-  
-जिः नाशि २, ८, ५.  
प्राच्य<sup>c</sup>- पा ४, २, १०१;  
-च्यानाम् अप ५२, ९, ५;  
-च्येषु काश्रौ २२, २, २४; या  
२, २.

प्राच्य<sup>d</sup> पा ४, १, १७८.  
प्राच्य-कठ<sup>d</sup>- -ठाः चव्यू २:३.  
प्राच्य-पञ्चाल-उपधा-  
निभो(भ-उ)द(य>)या<sup>e</sup>-  
-याः ऋप्रा २, ८१.

प्राच्य-पञ्चाल-पदवृत्ति<sup>f</sup>-  
-चयः ऋप्रा २, ३३.

प्राच्य-भरत<sup>g</sup>- -तेषु पा २,  
४, ६६; ४, २, ११३; ८, ३, ७५.

प्राच्यभरत-संज्ञा- -ज्ञा  
ऋत ५, २, ५.

प्राच्य-रथ<sup>h</sup>- -थः लाश्रौ ८,  
६, ९.

प्राच्यो(च्य-उ)द्रीच्य-नैर्क-  
त्य- -स्याः चव्यू २ : ३४.

प्रा(प्र-अ)चमन<sup>i</sup>- -नात् आमिष्ट ३,

११, २ : ५.  
प्रा(प्र-अ)चार्य<sup>j</sup>- -र्याय आपष १, ८,  
१९; हिध १, २, १०७.

प्राचिक्य- प्रचिक- द्र.

प्राचुर्य- प्रचुर- द्र.

प्राचुल- -ल्य- प्रचुल- द्र.

प्राचेतस- २प्रचेतस्- द्र.

२प्राच्य<sup>k</sup>- (> च्यायन- पा.) पाग ४,  
१, ११०.

प्रा(प्र√अ)ज्, प्राजति काश्रौ ७, ९, १२;  
१५, ६, १८; पाग ३, १४, ७.

प्राज्यात् आपश्रौ ५, २३, ३<sup>k</sup>;

प्राज्यात् आपश्रौ ५, २३, ३<sup>k</sup>;

प्राज्यात् आपश्रौ ५, २३, ३<sup>k</sup>;

प्रा(प्र-अ)जन<sup>m</sup>- -नेन गोग २, १,  
१३.

प्राजरुहा( °हा/कृ पा.), प्राजर्या(°र्या  
√कृ पा.) पाग १, ४, ७४.

प्राजहित- प्र√हा(त्यागे) द्र.

प्राजापत- प्राजापती-, प्राजापत्य-  
प्रसृ. प्र√जन् द्र.

१-२ प्राज्ञ- प्र√ज्ञा द्र.

प्राज्ञयति<sup>n</sup> या १४, २३<sup>१</sup>.

प्रा(प्र-अ)ञ्जलि<sup>o</sup>- -लिः माश्रौ २, १,  
२, ६; गोग १, ६, १६; द्राग्य;  
चव्यू ३ : ७<sup>p</sup>.

प्राञ्जलि-स्थित<sup>q</sup>- -तम् वृदे ८,  
४.

प्राटा, [डा]हति<sup>r</sup>- (> तायन- पा.)  
पा २, ४, ६१<sup>१</sup>.

प्राङ्-विवाक- √पृच्छ द्र.  
प्रा(प्र√अन)ण, प्राणति, प्राणन्ति  
शौच ४, ५७<sup>१</sup>.

प्राणिति माश्रौ २, १३, १३;  
वाधूश्रौ; प्राणिहि कौश्रु १, १६,  
३; शांश्रु १, २४, २; प्राण्यात्  
वैश्रौ २०, २ : ६; प्राणीत् ऋप्रा  
५, ५७<sup>१</sup>.

प्रा(प्र-अ)णत्- -णत् आपश्रौ १७,  
२१, ८; हिश्रौ १२, ६, २६<sup>१</sup>;

हिपि १३ : ११<sup>१</sup>; कौसु १३३,  
३; -णतः शांश्रौ ३, १४, ७;

काश्रौ २०, ५, २; आपश्रौ;  
काश्रौसं २६ : ३<sup>१</sup>;

-णता  
आपश्रौ १२, ८, ६; वाश्रौ ३, २,  
५, ११; -णते अश्रु ११, ४.

प्रा(प्र-अ)ण्य आपश्रौ ६, १०, १;  
१२, ८, ६××; माश्रौ.

प्राण<sup>w</sup>- पाग ४, १, ९९; पाग १, १६,  
११<sup>x</sup>; -प्राण आपश्रौ २, ९, १०;  
५, २, १; वौश्रौ; आपसं २, ४,  
१४<sup>y</sup>; -प्राणः आश्रौ २, १०,  
४; ८, १३, ९; शांश्रौ; आपश्रौ  
७, १४, २<sup>z</sup>; वौश्रौ ४, ६ : ५<sup>z</sup>;  
माश्रौ ७, ११, ३<sup>z</sup>; माश्रौ १,  
३, १, २२<sup>aa</sup>; वाश्रौ २, २, ३,  
१८<sup>bb</sup>; वैश्रौ १०, १० : १५<sup>z</sup>;  
हिश्रौ ४, ३, २५<sup>z</sup>; काग ४१,  
१८<sup>y</sup>; हिग १, १३, १७<sup>cc</sup>; ङ्या

a) °त् इति पाठः ? यनि. शोधः ( तु. संस्कर्तुः टि. ) । b) मलो. कस. उप. = आचार्य-विशेष- ।

c) तत्रभवीयः यत् प्र. । d) = शाखा-विशेष- । e) द्रस. > पस. > तृस. > वस. । f) द्रस. > पस. । g) द्रस. ।

h) कस. । i) प्रास. । j) = ऋषि-विशेष- । k) पाभे. वैप २, ३खं. प्राज्यात् लुशा ९१:२३ टि. द्र. । l) पाभे. वैप १, २२३९ C द्र. ।

m) = प्र-तोद- । उप. करणे कृत् । n) प्राङ् चै(च-ए)ति वा प्राङ् चयति वेति B.N. ।

o) वस. । p) = साम-विशेष- । q) पूष. क्वि. । r) < प्राडाहत- (< √प्रच्छ+आ√हृ) इति पागम. ।

s) व्यप. । व्यु. ? । t) प्राणा इति पांका., प्राटा इति वामनः ( तु. पागम. ) । u) णात् इति पाठः ? यनि. शोधः [ तु. आपश्रौ. ] ।

v) प्राणतत्प्रः इति पाठः ? यनि. शोधः [ तु. संस्कर्तुः टि. ] । w) वैप १ द्र. । x) पृ २६५ C द्र. । y) सपा. प्राण < > प्राणः इति पाभे. ।

z) पाभे. वैप १, २२२९ b द्र. । aa) सपा. आपश्रौ २, १४, १३ यत्नः इति पाभे. ।

bb) प्राणः इति पाठः ? प्राणान् इति शोधः ? [ तु. माश्रौ ६, २, ४, १२ ] । cc) सप्र. पाग ३, १५, २१<sup>१</sup>; २२<sup>१</sup> ब्रह्मा इति पाभे. ।

१४, ५; २०; -णम् आश्रौ १, ४, ८; २, ४, १४; ३, ३, ११<sup>०</sup>xx; शाश्रौ ४, ७, ११xx; ५, १७, ३<sup>०</sup>; काश्रौ ४, ८, २६; ९, ४, २८<sup>०</sup>xx; ङआपश्रौ २, ४, ५xx; ५, १२, २०; ङवौश्रौ १, ८: ९xx; २, १७: ३६०; भाश्रौ ५, ९, ८<sup>०</sup>xx; माश्रौ १, २, ५, ३xx; २, ६, १, ५०<sup>०</sup>; वाघुश्रौ; हिश्रौ ३, ४, ३८<sup>०</sup>; शंघ ११६: ६१<sup>०</sup>; वौघ १, ४, १२<sup>०</sup>; या ११, १८; १४, १०; -णत्स ङआपश्रौ १५, १४, १; २१, २०, २<sup>०</sup>; वौश्रौ; -ङण<sup>०</sup> निस् ७, ३: ३२; साश्र १, ५७०; -णा:शाश्रौ १६, २६, २; आपश्रौ; या ८, २२<sup>०</sup>ङ; १०, ४४; -णात् आपश्रौ १६, ३२, ३<sup>०</sup>; वौश्रौ; -णान् आश्रौ १, १३, १<sup>०</sup>; शाश्रौ; -ङणानाम् वाघुश्रौ ४, ९५: २; कौश्र ३, ५, २; शांश्र ३, ८, ५; आमिश्र; -ङणाय आश्रौ १, ७, २; ६, ९, १; शाश्रौ; आपश्रौ २, २०, ५<sup>०</sup>; वौश्रौ १, १७: १३<sup>०</sup>; माश्रौ २, १८, १६<sup>०</sup>; हिश्रौ २, ५, ४५<sup>०</sup>; आमिश्र १, ७, ३: २५<sup>०</sup>; या ५, २७<sup>०</sup>; -ङणे आश्रौ २, ४, १४<sup>०</sup>; काश्रौ; आपश्रौ १२, ११, ७<sup>०</sup>; ९<sup>०</sup>; १५, ११, ४<sup>०</sup>; वौश्रौ १, ११: ३<sup>०</sup>; १८, ३६: ९<sup>०</sup>; माश्रौ ११, ११, ४<sup>०</sup>; हिश्रौ

८, ३, २७<sup>०</sup>; -ङणेन आश्रौ ५, ६, १<sup>०</sup>; शाश्रौ १, ११, १<sup>०</sup>xx; १७, १७, १<sup>०</sup>; काश्रौ; आपश्रौ ६, २५; २<sup>०</sup>; वौश्रौ २४, ३०: २०<sup>०</sup>; माश्रौ ६, ५, ५<sup>०</sup>; माश्रौ १, ३, १, २२<sup>०</sup>; हिश्रौ ६, ७, ५<sup>०</sup>; -ङणेश्च: काश्रौ २६, ७, ४९; माश्र १, २७: १९; शुश्र ४, ११३; -णेषु आश्रौ १२, ९, १६; आपश्रौ; हिश्र २, १७, ४<sup>०</sup>xx; या १४, ३०; -णै: आपश्रौ १, १६, ८; ४, १०, १<sup>०</sup>xx; वौश्रौ; या १०, ८. प्राण-ग्रह<sup>०</sup> -हाणाम् आपश्रौ २१, १३, ९<sup>०</sup>; वौश्रौ १४, २२: ७; २३, ८: ४; -है: वौश्रौ २२, १९: ३५; २५, १७: १८. प्राणग्रह-पर्याय- -र्याणाम् वाश्रौ ३, २, १, ३२. प्राणग्रह-मान- -नानि हिश्रौ १६, २, १०<sup>०</sup>. प्राण-च्छेत्तु- -त्तु: वाघ ३, १५. प्राण-त्याग- -णात् विध ४३, ३२. प्राण-थ<sup>०</sup> -पाठ ३, ११३; -थेन वौश्रौ १०, ४: ५<sup>०</sup>. प्राण-द्,दा- -ङद: आश्र २, ४, १४; माश्र २, ८, ६; -दा अश्र ३१, ३, ३. ङप्राण-दा- -दा: काश्रौ १८, ३, ७; आपश्रौ १७, ५, १६; १३, ६; वौश्रौ. प्राण-दृष्टि- -ष्टि: वृद्धे ८, १३५.

प्राण-देव(तां>)त<sup>०</sup> -ता: या ८- २२. प्राण-देवता-><sup>०</sup>ल्य, त्या- -त्या शुश्र १, ४३२; -त्यानि शुश्र २, २००; ५, ८०; -त्ये शुश्र २, २८१. प्राण-देश- -शम् वाश्रौ १, ६, ४, १९; माश्र १, २२, ६; -शे वौश्रौ २१, ८: १७; २१; माश्रौ १, ८, ३, १२. प्राण-धर्मन्<sup>०</sup> -र्मणि कप्र ३, ३, ४. प्राण-नामन्- -म या ३, ८. प्राण-निवह- -हान् आपश्रौ १९, १३, १४<sup>०</sup>; हिश्रौ २३, २, ५०. प्राण-पति- (><sup>०</sup>पत्- पा.) पाग ४, १, ८४. प्राण-परायण<sup>०</sup> -ण: शंघ ४११. ङप्राण-पा<sup>०</sup> -पा: शाश्रौ ४, ७, ११; काश्रौ १९, ५, ९; आपश्रौ १२, २१, २; वौश्रौ ७, ५: ४४; शुश्र २, ४२९. प्राण-प्रभृति- -तिभि: द्राश्रौ १०, १, ४; लाश्रौ ३, ९, ४. प्राण-त्राधा-भय- -चात् शंघ ४४३; -येषु वाघ ६, १३. प्राण-भक्ष<sup>०</sup> -क्ष: आश्रौ ३, ९, ६; शाश्रौ ५, १०, २८; -क्षम् आश्रौ २, ७, ३xx; शाश्रौ; काश्रौ १०, ८, ६<sup>०</sup>; द्राश्रौ १२, ४, २०<sup>०</sup>; लाश्रौ ४, १२, १५<sup>०</sup>; ८, ८, २<sup>०</sup>; -क्षान् आश्रौ २, १९, ३०xx;

- a) पामे. वैप १, ६४२ b द्र. । b) पामे. वैप १, २२३२ a द्र. । c) पामे. वैप २, ३३८. प्राणम् तैत्रा १, २, १, २४ टि. द्र. । d) पामे. पृ ३३९ ० द्र. । e) = अङ्गिरसामन्यतम- । f) प्राणान् इति चौंस. । g) पामे. वैप १, ११६० m द्र. । h) पामे. वैप २, ३३८. प्राणाय तैत्रा ३, ७, ५, १३ टि. द्र. । i) पामे. पृ ३३९ k द्र. । j) पामे. वैप २, ३३८. वाचा ऐशा ५, १, ५<sup>०</sup> टि. द्र. । k) पामे. वैप २, ३३८. प्राणेन तैत्रा १, २, १, २७ टि. द्र. । l) सपा. आपश्रौ २, १४, १३ यज्ञेन इति पामे. । m) पामे. वैप १, २२३२ f द्र. । n) पामे. वैप १, २२३१ h द्र. । o) वैप १ द्र. । p) सप्र. ङ्हाणां मानानि<><sup>०</sup>ह-मानानि इति पामे. । q) वस. । r) ण्हिवान् इति पाठ: ? यनि. शोध: (तु. हिश्रौ.) । s) तुस. उप. = श्रवप्राण- । t) वा. किति. ।

शाश्रौ; -क्षेण माश्रौ ४, ३, ३५;  
५, २, १६, ६.  
प्राण-भूत- -तः वृदे २, ५२.  
प्राण-भृत्<sup>a</sup>- -भृत् वाधुश्रौ ३, ५३ :  
२१; -भृत्तः काश्रौ १७, ६,  
३××; आपश्रौ; -भृत्तम् हिश्रौ  
११, ८, ७; -भृत्ताम् कौसू  
१३५, ९१; -भृत्तयः काश्रौ १७,  
८, १३; ९, १२.  
प्राणभृज्-जाति- > प्राणभृज्जा-  
ति-त्रयोवचन<sup>o</sup> पा ५, १, १२९.  
प्राणभृद्-देवता-> <sup>o</sup>त्य-  
-त्यानि शुअ २, १७७.  
प्राण-मय- -यम् वाधुश्रौ २, १६:६.  
प्राण-मार्ग- -गैषु वैश्र ५, ३ : २४.  
प्राण-यात्रा- > <sup>o</sup>त्रा-मात्र- -त्रम्  
वैध ३, ५, १३; ७, ७.  
प्राणयात्रिक<sup>b</sup>- -कम् वौध २,  
१०, ५२.  
प्राणयात्रिक-मा(त्रा >)त्र<sup>c</sup>-  
-त्रः वाध १०, २२.  
प्राण-लाभ- -भे गौध २२, ६.  
प्राण-वत् वृदे ७, ८२.  
प्राण-त्र(त् >)ती<sup>d</sup>- -ती वैश्र १,  
१४ : ११; -<sup>o</sup>तीम् काश्रौ ४,  
१४, १३; वैताश्रौ ७, ९; अप  
४५, १, १८.  
प्राण-विप्रयोग- -गात् आपध २,  
११, १९.  
प्राण-वियोग- -गात् हिध २, ४,  
१७९.  
प्राण-विलोप- -पः निस् ७, २ : २.  
प्राण-वृत्ति- -त्तिम् आपध १, २९,  
१; २, २१, १०; हिध १, ७, ५७;

२, ५, ११९.  
प्राणवृत्त्य(त्ति-अ)र्थ- -र्थम् शंघ  
३९४.  
प्राण-संशय- -ये गौश्र ३, २, २१;  
जैश्र १, १७ : ५; आपध.  
प्राण-संतत- -तः आश्रौ २, १५, १४;  
-तम् आश्रौ २, १७, ५.  
प्राण-संदेह- -हे आज्यो १०, १.  
प्राण-संमर्शन- -नम् शाश्रौ ४, २१,  
२०; ८, ९, ८.  
प्राण-संमित, ता- -तः आश्र १, १९,  
१३; शाश्र २, १, २१<sup>f</sup>; कप्र ३,  
९, १६; -तम् जैश्र १, ७ : ५;  
१२ : ५२. -ताम् आश्रौ १, ७,  
६; २, ३, १५.  
प्राण-सूक्त- -क्तम् अप ४४, ४, २;  
-क्तस्य अशा २३, ५१; -क्तेन  
अशा २५, ११.  
प्राण-सूत्र- -त्रेण काश्र २९, ११.  
प्राण-स्थान- -नम् आश्रिण १, ६, ३ :  
१४; -नेषु आश्रिण ३, ४, ३ :  
१०; वौपि.  
प्राण-ह(र >)रा- -रा आज्यो ५,  
१३.  
प्राणा(ण-आ)ख्या- -ख्या शौच ४,  
३९.  
प्राणा(ण-अ)ग्निहोत्र<sup>e</sup>- -त्रम् वैश्र २,  
१८ : १३.  
प्राणाग्निहोत्र-मन्त्र- -न्त्रान्  
वौध २, ७, २७.  
प्राणाग्निहोत्र-लोप- -पेन वौध  
२, ७, २४.  
प्राणाग्निहोत्र-विधान- -नम् वैश्र  
२, १८ : १.

प्राणाग्निहोत्र-विधि- -घिना वैध  
३, ७, ७.  
प्राणा(ण-अ)त्यय- -ये वाध १६,  
३६.  
प्राणा(ण-आ)दि- -दि भाशि ४१.  
प्राणा(ण<sup>h</sup>-अ)घ >)घा- -घाः  
अशा २३, ३.  
प्राणा(ण-अ)न्त-> <sup>o</sup>न्तिक<sup>b</sup>- -कः  
वाध ३०, १०; -कम् गौध २०,  
१४.  
प्राणा(ण-अ)पान- -नम् वाश्रौ  
२, १, ७, २०; -नयोः वौश्रौ  
१४, ४ : २१; आपध २, २०, १;  
आश्र ३, १०, ४; ६<sup>g</sup>; कौश्र;  
-नाः अश्र ११, ३, (२)<sup>h</sup>;  
-नाभ्याम् आपश्रौ २, ८, ६;  
वौश्रौ १४, ८ : ३४; भाश्रौ २,  
८, ९; माश्रौ २, ३, ७, १<sup>k</sup>; वाश्रौ;  
-ने माश्रौ १, ६, १, ३५<sup>g</sup>; कौश्र २,  
८, ९<sup>l</sup>; -नैः अश्र ११, ३, (२);  
-नौ आश्रौ १, ५, १७××; काश्रौ;  
शाश्र २, १८, ३<sup>l</sup>; -०नौ आपश्रौ  
१४, १९, ३<sup>l</sup>; वौश्रौ.  
प्राणापाना(न-अ)वरुद्धि- -द्धयै  
कौसू ८०, ३०; ४१.  
प्राणा(ण-अ)पान-व्यान- -नाः निस्  
८, १२ : ५.  
प्राणा(ण-अ)पान-व्यानो(न-उ)दान-  
समान- -नाः वौध ३, ८, १६<sup>g</sup>.  
प्राणा(ण-अ)पान-समानो(न-उ)दान-  
व्यान- -नान् शंघ १६६ : २३.  
प्राणा(ण-अ)पाना(न-आ)युर्-  
देवता-> <sup>o</sup>त्य- -त्यानि अश्र  
२, १७.

a) वैप १ द्र. । नाप. [पा.] । b) मत्वर्थीयप् ठच् प्र. । c) वस. । d) = अश्रिण-विशेष- ।  
e) परस्परं पाभे. । f) सपा. कौश्र २, १, २१ प्राणान्तिकः इति पाभे. । g) सप्त. उप. = आहुति- । h) प्राणाय  
(शौ ११, ६, १) इत्यस्य प्रतीकम्. । i) पाठः ? (तु. Old., सपा. कौश्र २, ८, ९ णे इति, शाश्र २, १८, ३ णौ  
इति च पाभे.) । j) णः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. शौ ११, ४, ७) । k) पाभे. वैप १, २२३ १ i द्र. ।

प्राणा(ण-आ)यत्न<sup>१</sup>- नानि भाश्रौ  
 ३,६,११; १८,२; वैश्रौ ७, ७:  
 १××; हिश्रौ: -नेषु शाश्रौ ४,  
 १४,१६; काश्रौ; वौषि ३,३,५<sup>०</sup>.  
 प्राणायत्न-मर्मन्- -मार्गि वैश्र  
 ५,१: १९.  
 प्राणायत्न<sup>२</sup>- पा ४, १, ९९; -तन:  
 वौश्रौ १०, ३५: ४: १४, २२: ९.  
 प्राणा(ण-आ)यान- -म: आद्रिष्ट २,  
 ७,९: ३४; भाष्ट ३, २०: ३; वैश्र  
 २, ४: ६××; कप्र: -मन् वैश्रौ  
 २, ४: ८; वैश्र: शंघ ११६:  
 ५७<sup>०</sup>; -सा: वाघ १०, ५: २६,  
 ४; वौष: -मान् वैश्रौ १, ४:  
 ३; आद्रिष्ट: -मेन वैश्र ४, १:  
 ११: १८; विघ ५०, ४७; वैश्र २,  
 २, ३; सुघ ५१; -मै: वौश्र २,  
 ९, ४; वाघ २५, ३××; वौष.  
 प्राणायाम-त्रय- -यन् विघ  
 ५४, २३; सुघ २६; सुघप ८६: ८.  
 प्राणायाम-धारणा-ध्यान-नित्य-  
 -स्य: विघ २६, २४.  
 प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-  
 (णा-आ)दि- -द्वय: वैश्र १, १०,  
 ८.  
 प्राणायाम-शत- -तन् वाघ २३,  
 ३१; शंघ ४१२; वौष.  
 प्राणायाम-शस्(ः) आपघ १,  
 २६, १५; वौष २, ४, ६.  
 प्राणायामा(म-आ)शीन्धन-मैक्षा-  
 चरण-स्थाना(न-आ)सन-शयनौ  
 (न-उ)पस्पर्शन-सुमनस- -नस:  
 वौश्र ३, ३, २३.  
 प्राणायामा(म-आ)दि- -द्वय:  
 वैश्र १, १०, ८.

प्राणायामा (म-आ)सन-प्रत्या-  
 हार-धारणा-युक्त- -क्त: वैश्र १,  
 ९, १३.  
 प्राणा(ण-आ)युक्त- -यु: अत्र २,  
 १७.  
 प्राणा(ण-आ)वन्- -नाय अत्र ५,  
 ३०.  
 प्राणा(ण-आ)हुति- ति: आद्रिष्ट  
 २, ४, १०: २६; -तिम् आद्रिष्ट  
 २, ४, १०: ३४; -ती वौश्रौ  
 १४, ४: १९; ३४; -ती:  
 आपश्रौ १५, ७, ३; वौश्रौ २,  
 ६: २४××; भाश्रौ.  
 प्राणिन्- -णि वाश्रौ ५, १३, १५;  
 शाश्रौ ७, १८, ७; माश्रौ ३, १,  
 २१; ५, २, १४, ११; कौश्र १४१,  
 १३; -णित: शाश्रौ १६, १५,  
 ८; अत्र ७०<sup>२</sup>, १२, २; आपघ  
 १, २२, ४; हिघ १, ६, ४; चा  
 ६, ३६; -णितान् शाश्रौ १५,  
 १७, ११; कौश्र: -णिति पावा  
 ४, १, ४२.  
 प्राणि<sup>३</sup> पा ४, ३, १५४.  
 प्राणि-त्पूर्व-सेना(न-आ)ङ्ग-  
 -ङ्गानाम् पा, पावा २, ४, २.  
 प्राणि-प्रतिषेध- -घ: पावा ४,  
 ३, १५४.  
 प्राणि-भू-पुण्य-सोन-विक्र-  
 यिन्<sup>४</sup>- -यी विघ ५४, १७.  
 प्राणि-वध- -घ: वाघ ४, ७;  
 विघ ५१, ७१; -धात् वाघ  
 ६, २५.  
 प्राणि-विशेष- -प: शंघ ३७७:  
 ३.  
 प्राणि-स्य- -स्यात् पा ५, २,

९६; १२८.  
 प्राणि-हिंसा - सान् अत्र १९<sup>२</sup>,  
 ५, ५.  
 प्राणिहिंसा-पर- -र: विघ  
 ५२, १७.  
 प्राण्य(णि-आ)ङ्ग- -ङ्गात् पावा  
 ५, २, १२८<sup>६</sup>; पागवा ४, १, ४५.  
 प्राण्यो(णि-आ)पधि-वृक्ष-  
 -हेम्य: पा ४, ३, १३५; पावा  
 ४, ३, १३२.  
 प्राणो(ण-ई)श्वर- -र: आद्रिष्ट २,  
 ५, ३: १५; वौश्र ३, ७, १४.  
 प्राणो(ण-उ)क.का- -क्या निश्र  
 ५, ८: १५; -का: निश्र ७, २:  
 १.  
 प्राणो(ण-उ)क्रम- -म: दारुठ  
 ४५: ८.  
 प्राणो(ण-उ)क्लान्ति- -न्ति: वैश्र  
 ५, ६: १६; ७, ९: १.  
 प्राणो(ण-उ)दान- -दानौ सुश्र १,  
 २५६.  
 प्राणो(ण-उ)पस्पर्शन- -नम् गौष  
 १, ५४.  
 प्राणन्त- पाठ ३, १२७.  
 प्राणपत- ,ति- प्रम्. प्राण-द्र.  
 प्रा( < प्र )णाह<sup>५</sup>- -हस्य अत्र ३, ४,  
 ११.  
 प्राणाहति- ( > वाचन- ) प्राय-  
 हति- टि. द्र.  
 प्रातर(ः, स्)<sup>६</sup>- पाठ ५, ५९; पाग  
 १, १, ३७; -त: वाश्रौ २, २, ५;  
 ४, २३; १६, १; ३, १२, ३;  
 ४<sup>०</sup>××; शाश्रौ २, ६, १; ११××;  
 काश्रौ २, १, १६; ४, २, ३६××;  
 आश्रौ १, १, २; १२, ४; ३, १६;

a) = इन्द्रिय-स्थान- । b) तु. ड. । c) वैश्र १ द्र. । d) = साध्य-विशेष- । तप्र. अणु २१९,  
 २५ प्राण: इति । e) उप. < √ लृक् [रक्षणे] । f) जीसं. ण्य-सोन-वि इति ? । g) तु. पावा. पासि. ।  
 h) पामे. वैश्र १, १५७६ k द्र. ।

१२-१४xx; ९, ७, ४<sup>†</sup><sup>a</sup>;  
काठश्री; वौश्री २८, १२: ७<sup>†</sup><sup>a</sup>;  
भाश्री ४, १, ३; ५, १०,  
१२xx; माश्री १, १, ३, २२;  
६, १, १xx; ३, ३, ६<sup>†</sup><sup>a</sup>;  
वाधूश्री ३, २५: ४; १४xx;  
वाश्री १, ५, २, ४xx; वैश्री १, ७:  
१६; १४: ६; २, २, १३<sup>†</sup><sup>a</sup>;  
हिश्री १, २, १; ४, २०xx;  
१५, २, २१<sup>†</sup><sup>a</sup>; जैश्री २२:  
१६; वैताश्री १, १६; ७, १०xx;  
निसू ४, ३: १९; आपमं १,  
१४, १<sup>६</sup>; आगृ १, ९, ७; ३, ७, ५;  
कौगृ १, १, १; १०, २२xx;  
शांगृ १, १, ११; ५, ४,  
५<sup>†</sup><sup>a</sup>; पागृ १, ९, ४; आमिगृ १,  
६, ३: ५१; ७, २: २xx; आपगृ  
७, २१; १८, १xx; कागृ २, ३;  
५, ११xx; वौगृ २, ६, २१;  
३, ४, २२; वौपि १, १: ५; ६xx;  
भागृ १, १८: १४; २, ७: २७xx;  
मागृ १, २, ५; वैगृ १, ३: १४;  
५, ६: २२xx; हिगृ १, १७,  
४; १९, ३xx; हिपि १४: १४;  
२१: ८; गोगृ १, १, २८; ३,  
११xx; जैगृ १, १३: ७; १६:  
२xx; द्रागृ १, ५, १५; २, ३,  
१xx; गो १, ६; २, २८; कप्र १,  
२, १; १०, १xx; कौसू १,  
३६xx; उं२, २९<sup>b</sup>; अत्राय  
१, २; ४, ३xx; अप १<sup>२</sup>, १, २;  
४, १, १xx; वाध २३, २३;  
४३xx; शंघ ९८; १३२<sup>†</sup><sup>a</sup>xx;  
आपध२, २९, ७; वौध २, १, ६४;

६५xx; विध ४६, १०; ६१, १६;  
वैध १, ७, ५; २, ६, २xx; हिध  
१, २, १२<sup>c</sup>; ६, २०; अपं  
२: २८; ङ्या ७, २७; १२, ५;  
याशि ४, २; ५xx; याशि १,  
३६; नाशि २, ८, ३; मीसू ६,  
५, ४४; प्रातःSप्रातः कौसू १७,  
२८; अप ८, १, २.  
प्रातःकर्मन्-र्मणा वौश्री २६,  
१३: ८.  
प्रातर-अग्निहोत्र-भक्ति-क्ति:  
वौश्री २५, १६: ४.  
प्रातर-अनुवाक<sup>d</sup>-कः आश्री ४,  
१५, २; ८, ६, २; शाश्री; -कम्  
आश्री ४, १३, ६; शाश्री; -कस्य  
शाश्री ११, १३, ५; १४, ५१, ७;  
काश्रीसं; -कात् आपश्री १२,  
३, ९; १७, २३, १; वौश्री; -काय  
आश्री ४, १३, १; शाश्री; -के  
आश्री ६, ९, १; शाश्री; -केन  
वौश्री १६, ३: १५; -<sup>†</sup>कैः<sup>e</sup>  
आपश्री ४, ९, २; भाश्री ४,  
१२, ४; १८, ७; वाश्री १, १, २,  
२८; हिश्री ६, ३, २; १०.  
प्रातरनुवाक-काल-ले वाश्री १,  
१, ६, २.  
प्रातरनुवाक-न्याय-येन आश्री  
६, ५, ८.  
प्रातरनुवाक-प्रतिपद<sup>f</sup>-पदि  
आश्री ७, ११, १.  
प्रातरनुवाक-प्रभृति-ति शाश्री  
६, १, २५; १४, ५१, ४.  
प्रातरनुवाक-मन्त्र-न्त्रे वैश्री  
१५, ४: ३.

प्रातरनुवाक-वेला-लायाम्  
शाश्री १६, १८, १६.  
प्रातरनुवाका(क-आ)दि-दि  
आश्री १, १२, १९.  
प्रातरनुवाकाद्यु(दि-उ)द्वसा-  
नीयान्त-न्तानि आश्री ७, १,  
४.  
प्रातरनुवाका(क-अन्त>)न्ता<sup>g</sup>-  
न्ता द्राश्री १, ३, ३०.  
प्रातरनुवाको(क-उ)पक्रमण-  
वेला-लायाम् द्राश्री १, ३,  
१८<sup>h</sup>.  
प्रातरनुवाको(क-उ)पक्रम-वेला-  
लायाम् लाश्री १, ३, १८<sup>h</sup>.  
प्रातरनुवाको(क-उ)पाकरण-  
णम् काश्री ९, १, १०; -णात्  
द्राश्री २, २, ४३.  
प्रातर-अन्त<sup>i</sup>-न्तम् कप्र २, ९, १.  
प्रातर-अपवर्गा<sup>j</sup>-र्गम् वौश्री २४,  
३०: १; आमिगृ ३, ५, १: ५;  
वौपि १, १: ४; -र्गाणि वौश्री  
२५, ७: ७.  
प्रातर-अभिवाद-दम् आपध १, ५,  
१२<sup>o</sup>.  
प्रातर-अवनेक [ग]<sup>d</sup>-<sup>†</sup>कैने<sup>i</sup>  
आपश्री ६, २०, १; भाश्री ६, २,  
१; ३, १०; हिश्री ६, ६, २१;  
-गेन वाश्री १, ५, ४, १८<sup>†</sup>.  
प्रातर-अह<sup>l</sup>-हस्य गोश्री ४, ६,  
१०; द्रागृ ४, १, २३.  
प्रातर-आगामिन्-मिन् या ५,  
१९.  
प्रातर-आचाम<sup>k</sup>-मम् वौश्री १५,  
३: ५.

a) पामे. वैप १, १५७६ k द्र. । b) अष्टाविंशे सूत्रे संनिवेशः समुचित इति C. (LZDMG ५१, १३५) । c) सप्र. प्रातः<>प्रातरभिवादम् इति पामे. । d) वैप १ द्र. । e) पामे. वैप १, २१७४ p द्र. । f) उप. = आद्या-कन्- । g) वस. । h) परस्पं पामे. । i) पामे. वैप १, २२३४ h द्र. । j) वैप २, ३३०. द्र. । k) उप. = आचमन- ।

प्रातर्-आश- -शम् वीध २,७,२६;  
-शात् कौस् १४१, ३४; वाध;  
-शान् वाध २७,१६; वीध २६,  
२; -शे हिथ्रौ ६,१,१४; अत्राय  
४,४.  
✓प्रातराश<sup>a</sup>, प्रातराशेत् वाग्  
१७,२१.

प्रातर्-आहार- -रम् शंघ ४४४.

प्रातर्-आहुति<sup>b</sup>- -तये वीधौ ३, ४ :  
४; -तिः काश्रौ २५, ७, १;  
वाधूश्रौ; -तिम् वीधौ २९, ७ :  
४; वाधूश्रौ; -ती वैग् ३, ६ :  
२; -तीः अप २३, ८, ४; -तेः  
भाश्रौ ९, ८, ९; माश्रौ; -तौ  
शाश्रौ १६, १, १०; भाश्रौ ९,  
८, ९; द्राश्रौ; -त्या वाधूश्रौ ३,  
२९ : ५××; निस् २, ५ : ६;  
३१; -त्याम् काश्रौ २०, १, १९;  
-त्यै वाधूश्रौ ३, ३४ : २; ३५ :  
३.

प्रातराहुति-काल- -लः वीधौ  
२८,१२ : ५; वैश्रौ २, २ : १५;  
-लात् वीधौ २८,१२ : ४; वैश्रौ  
२,२ : १४.

प्रातराहुति-श्रुति- -तेः काश्रौ  
१०,९,२३.

प्रातराहुत्य( ति-अ )न्त- -न्ते  
काश्रौ २४,७,३.

प्रातराहुत्यु( ति-उ )पक्रम<sup>c</sup>- -माः  
लाश्रौ १०,११,३.

प्रातर्-इत्वन- -त्त्वः या ५,  
१९४; -त्वना या ४,१७.

प्रातर्-इष्टि- -ष्टिभिः हिथ्रौ १४,  
२,१८.

प्रातर्-उपक्रम<sup>c</sup>- -माणि वीधौ २५,  
७ : ७.

प्रातर्-उपस्थान- -ने वाश्रौ १, ५,  
४,८.

प्रातर्-जप- -पेन कौस् ६५,१६.

प्रातर्-जित<sup>d</sup>- -जितम् आपमं १,  
१३, १; वाग् ५, १५; वृदे ५,  
१७०; अत्र ३, १६; या १२,  
१४.

प्रातर्-दुग्ध<sup>e</sup>- -ग्धम् आपश्रौ  
१०,१७,५.

प्रातर्-दोह<sup>e</sup>- -हः वीधौ १९, ५ :  
३८; २७,१३ : ६; -हम् काश्रौ  
४, २, ३८; ७,४,२६; आपश्रौ;  
-हस्य वैश्रौ २०, ३ : ५; हिथ्रौ  
५,१, १६××; -हाः हिथ्रौ २,  
६,५३; -हात् भाश्रौ ८, २, १;  
-हाभ्याम् आपश्रौ ३,१६, १३;  
-हाय आपश्रौ १,१४,७; वीधौ;  
-हे आपश्रौ ८, २, ५; ९, १,  
२९; काश्रौसं; -हेन आपश्रौ ९,  
१,२८; भाश्रौ; -हौ हिथ्रौ ५,२,  
२८.

प्रातर्दोह-पात्र- -त्राणि आपश्रौ  
१,१५,९; १२,४,३; भाश्रौ १,  
१६,४; हिथ्रौ १,४,४०.

प्रातर्दोह-वत् आपश्रौ ८,१०,३;  
२०,४; वीधौ २८,४ : ८; वैश्रौ  
८,४ : ९.

प्रातर्दोह-विकार- -रः हिथ्रौ ४,  
५, ६२; -रम् आपश्रौ ८, ५,  
३३.

प्रातर्दोह-स्थान- -ने अत्राय ४,  
१.

प्रातर्दोहिक- -कानि वाश्रौ १,  
२,४,४.

प्रातर्-दोहन- -नम् काश्रौ ४, २,  
३७.

प्रातर्-वलि- -लौ वैग् ७,६ : ७.

प्रातर्-भास्- -भासाम् कप्र १,९,१.

प्रातर्-मन्त्र- -न्त्रेण वीधौ ९,१२ :  
१६.

प्रातर्-माध्यंदिना(न-आख्या>)  
ख्य<sup>f</sup>- -ख्ययोः जैश्रौका १४३.

प्रातर्-यज्ञ- -ज्ञस्य वैश्रौ २, २ :  
१७१.

प्रातर्-यावन्<sup>d</sup>- -विभिः आश्रौ ५,  
७,६; शाश्रौ ७, ७, २; आपश्रौ;  
-वभ्यः शाश्रौ २,८,२१; ६, ३,  
९; काश्रौ; -वाणः आपश्रौ ६,  
८,४; वीधौ ३, ५ : १६; भाश्रौ  
६, ११, ७; हिथ्रौ ३, ७, ५१;  
-वाणम् वाधूश्रौ ४, ८५ : १३;  
-वाणा आश्रौ ९, ११, १५;  
शाश्रौ ५,९,२२; ऋत्र २,५,७७;  
-ऽगः शैशि ७३.

प्रातर्-युज- -युजा<sup>e</sup> आश्रौ ४,  
१५, २; ५, ५, १२; शाश्रौ; या  
१२, ४४; -युजौ<sup>e</sup> वैश्रौ १६,  
१५ : १०; हिथ्रौ ९,३,५९.

प्रातर्-योगिन- -गिनौ या १२,४.

प्रातर्-वेप<sup>b</sup>- -पाय आपश्रौ १,  
१४,६; हिथ्रौ १,३,५७.

प्रातर्-हस्तम् वाश्रौ ३,४,५,५.

प्रातर्-हुत- -ते वाश्रौ १, २, ४,  
१.

प्रातर्-होम<sup>b</sup>- -मः हिथ्रौ ९,६,३३;  
कप्र २,९, ६; ३, २, २; -मम्  
आपश्रौ १३, २५, ९; वीधौ;  
-मानाम् काग् ४५ : १९; -मे  
वैग् ६,४ : ५; १५ : ५; -मेण  
अप २३,७,३.

प्रातर्होम-काला(ल-अ)नति-  
कम- -मः कप्र ३,८,८.

a) क्विन्तः नाधा. b) वैप २,३खं. द्र. c) वस. d) वैप १द्र. e) = प्रातर्-दुग्ध-।  
f) दस. > वस. g) पाभे. वैप १,२२३५ b द्र.।



प्रातर्होमा (म-अ)न्त-न्ते वैश्व  
६,२० : ५.  
प्रातः-सन्ध्या- -न्ध्याम् आग्निष्ट २,  
६,८ : ४२; शंघ १२७.  
प्रातः-समिद्धो (<हो)म- मे  
वैश्व ६,८ : १०.  
†प्रातः-सव<sup>a</sup>- -वस्य काश्रौ ९,९,  
५<sup>b</sup>; ६<sup>b</sup>; १०, १२<sup>c</sup>; काठश्रौ  
१३४<sup>b</sup>.  
प्रातः-सव<sup>d</sup>-सवन<sup>a</sup>- -नम् आश्रौ ५,  
१,४; ९,१०, १; शांश्रौ ७,२६,  
१५××; काश्रौ; निसू ७,४:४५†;  
या ७,८; -नस्य वौश्रौ ७,१५ :  
९†××; माश्रौ; -नात् शांश्रौ  
६,१३, १२; १३,७,१; काश्रौ;  
माश्रौ २,४, ३, २९†<sup>c</sup>; -नाय  
आपश्रौ १२, ९, ७××; वौश्रौ;  
-ने आश्रौ ५,२,१२××; शांश्रौ;  
काश्रौ ९,३,१८†<sup>c</sup>; २४,४,१†<sup>c</sup>;  
आपश्रौ १२,२९,१३†<sup>c</sup>; वौश्रौ  
७, ८ : १†<sup>c</sup>; १४, ५ : ९†<sup>c</sup>;  
वैश्रौ १५, ३८ : १३†<sup>c</sup>; हिश्रौ  
८, २, ४०†<sup>c</sup>; ८, ६२†<sup>c</sup>; निसू  
३, ६:२८; ७, ७ : ३१; अत्र ६,  
४७†<sup>c</sup>; -नेन शांश्रौ ७,१७,१४;  
८, २, १२; आपश्रौ १३, १, २;  
हिश्रौ ९,१,२; निसू ३, ६:१०†.  
प्रातःसवन-तृतीयसवन- -नानि  
शांश्रौ १०,११, १०.  
प्रातःसवन-प्रमृति- -ति काश्रौ  
१०,५,७.  
प्रातःसवन-भाज्- -भाजः  
वाधूश्रौ ४,७६ : ३.  
प्रातःसवन-मध्य<sup>f</sup>-त्व- -त्वात्  
मीसू ११,३, १३.

प्रातःसवन-योग<sup>f</sup>- -गम् पाशि७.  
प्रातःसवन-वत् आपश्रौ १३,  
१०, ५; १४, १, ८; वैश्रौ १६,  
१० : ११; वैताश्रौ २६, ४.  
प्रातःसवनिक<sup>g</sup>- -कः शांश्रौ ७,  
१९, ७; ८, ३, ६; वौश्रौ २५,  
२३ : ५; माश्रौ २, ३, २, ३;  
-कम् वौश्रौ २५, १९:६; माश्रौ  
२,३, १, १९; २, ३५; -कात्  
माश्रौ २,३,४,२२; -के आपश्रौ  
१४,१९, ११; माश्रौ २, ३, ४,  
१२; ५, १४; -केषु आश्रौ ९, २,  
६××; -कैः वौश्रौ २५, १६:११.  
प्रातःसवनिकी- -क्यः आश्रौ  
५, ५, १८.  
प्रातःसवनीय,या- -याः वाधूश्रौ  
४, २९<sup>c</sup> : ६; -यात् काश्रौसं  
२९ : ११; -यात् शांश्रौ १४,  
२, १७; १३, ४; काश्रौ; -यानाम्  
वौश्रौ १८, २२ : ३; -येषु वौश्रौ  
१८, ३७ : १५.  
†प्रातः-साव<sup>a</sup>- -वस्य आश्रौ ५, ५,  
१५; शांश्रौ ७, ४, २; आपश्रौ  
१२, २०, १५<sup>b</sup>; २३, ४<sup>c</sup>; वौश्रौ  
७, १२ : ७<sup>b</sup>; ११<sup>b</sup>; १४ : १०<sup>c</sup>;  
२६, १९ : १५<sup>b</sup>; माश्रौ २, ३,  
७, ९<sup>b</sup>; ४, १, २१<sup>c</sup>; वैश्रौ १५,  
२५ : ६<sup>b</sup>; ७<sup>b</sup>; २९ : १०<sup>c</sup>;  
हिश्रौ ८, ६, २<sup>b</sup>; ७, २२<sup>c</sup>.  
प्रातः-सूक्त- -कम् अत्र ३, १६.  
प्रातः-ज्ञान- -नम् शंघ १००;  
१०१.  
प्रातः-ज्ञान-शील<sup>f</sup>- -लः विघ  
६४, ९.  
प्रातः-ज्ञायिन्- -यी शंघ १०१;

विघ ९०, २९.  
प्रातरग्नि<sup>o</sup> प्रमृ., प्रातर<sup>o</sup> प्रमृ.  
प्रातर- द्र.  
प्रातरीय- २प्रतर- द्र.  
प्रातरुप<sup>o</sup>, °तर्ज<sup>o</sup> प्रमृ. प्रातर- द्र.  
प्रातः सच- प्रमृ. प्रातर- द्र.  
प्रातिकण्ठिक- प्रति-कण्ठ- द्र.  
प्रातिकूलिक-, °कूल्य-प्रतिकूल- द्र.  
प्रातिक्य- २प्रतिक- द्र.  
प्रातिजनीन- १प्रतिजन- द्र.  
प्रातिज्ञ- प्रति√ज्ञा द्र.  
?प्रातितमितधानाशने अप १८<sup>२</sup>,  
६, ३.  
प्रातिथेयी- प्रतिथि- द्र.  
प्रातिनिधिक- प्रति-नि√धा द्र,  
प्रातिपथिक- प्रतिपथ- द्र.  
प्रातिपद्- प्रति√पद् द्र.  
प्रातिपदिक- प्रमृ. प्रतिपद्- द्र.  
प्रातिपान- प्रति√पा (पाने) द्र.  
प्रातिवोध-, °धायन-२प्रतिवोध- द्र.  
प्रातिभाव्य- प्रमृ. प्रति√भू द्र.  
प्रातिलोमिक-, °लोम्य-प्रतिलोम- द्र.  
प्रातिवेश्य- प्रतिवेश- द्र.  
प्रातिशाक्य- प्रतिशाक- द्र.  
प्रातिशाख्य- प्रमृ. प्रतिशाख- द्र.  
प्रातिश्रुत्क- प्रति√श्रु(श्रवणे) द्र.  
?प्रातिष्णात्री<sup>b</sup>- -त्रीः वाधूश्रौ ३, ९२:  
३; -त्रीम् वाधूश्रौ ३, ९२ : ७.  
प्रातिसुत्वन- प्रति-सुत्वन्- द्र.  
प्रातिहत- प्रति√हृत् द्र.  
प्रातिहर्त्रं-, °हारिक- प्रति√हृ द्र.  
प्रातीथेयी- प्रति [ती] थि- द्र.  
प्रातीपिक- प्रतीप- द्र.  
प्रात्यक्ष- प्रत्यक्ष- द्र.  
प्रात्यग्रथि- प्रत्यग्रथ- द्र.

a) वैप १ द्र. । b) सपा. °सवस्य <> °सावस्य इति पाठे. । c) पाठे. वैप २, ३खं. प्रातःसवस्य  
मात्र ४, २, १, २३ टि. द्र. । d) निसू. वौध. पाठः । e) पाठे. वैप १, २२३५ i द्र. । f) वस. ।  
g) तात्रमविकः प्र. । h) पाठः ? प्रतिष्णात्री- इति संस्कृतः सूची ।

प्रात्ययम् वाश्रौ ३, ४, ५, ५.  
 प्रात्ययिक- प्रती(ति/इ) द्र.  
 प्राथमिक-, म्प्र- प्रथम- द्र.  
 प्रादक्षिण्य- प्रदक्षिण- द्र.  
 प्रा-दाय प्र/दा द्र.  
 प्रादि- प्रन्. प्र द्र.  
 प्रादुराक्षि<sup>१</sup>- -क्षिः शुभ्र ३, ६०.  
 प्रादुस(ः, र, ष्)<sup>२</sup> वाधुश्रौ ४, ७५:  
 १८; ३०; माय १, १४, ३; अप  
 ७२, ४, ३; वाध १६, २४; शंघ  
 २४३, वृदे ५, ६७; ७, ४५; ६३;  
 या २, ८; ७, २३; २९; १४, २;  
 पाग १, १, ३७; ४, ६१; ७४.  
 प्रादुर/भू > प्रादुर-भाव- -वः  
 अप ६३, २, ८; -वाव आपय  
 ८, १३; -वे आय ३, ५, २; कौय  
 ३, ७, २; शांय ४, ५, २; पाय.  
 प्रादुर्भावि-नामन- -नेषु अप  
 ७२, ४, ५.  
 प्रादुर्भावा(व-अ)न्त<sup>३</sup>- -न्ताव  
 लाश्रौ १०, १७, ९.  
 प्रादुर-भूत- -तः माय २, १३,  
 ६१; -तेषु आपश्रौ ७, २०, ३;  
 भाश्रौ १, २१, ८; वाश्रौ.  
 प्रादुष्/कृ पा १, ४, ७४.  
 प्रादुष्-करण- -णम् शाश्रौ २,  
 ६, ४; कप्र १, ९, १.  
 प्रादुष्करण-वेला- -लायाः  
 गौय १, १, २४.  
 प्रादुष्करण-हवनकाल- -लौ<sup>४</sup>  
 शांय १, १, १२.  
 प्रादुष्करण-होमकाल- -लौ<sup>४</sup>

वाय १, ९, ४.  
 प्रादुष्-कृत- -तेषु कौस् १४१,  
 १६.  
 प्रादुष्कृता(त-अ)सि- -सिषु  
 गौय १६, २३.  
 प्रादुष्-कृत्य गौय १, १, २७; २८;  
 द्राय १, ५, ७.  
 प्रादेश-, -शिक- प्रन्. प्र/दिश् द्र.  
 प्रादोष-, -षिक- १प्रदोष- द्र.  
 प्रादोहनायन-, -हनि- प्रदोहन- द्र.  
 प्राद्युम्नि- प्रद्युम्न- द्र.  
 प्रा(प्र-आ)/घा, प्रादद्युः अप्राय २, ९.  
 प्राधान्य- प्रन्. प्र/घा द्र.  
 प्रा(प्र-अ)धी (वि/इ), प्राधीचते<sup>५</sup>  
 जैय १, १४ : ११६; प्राधीवीर्य  
 शांय ६, २, १०; ३, ७; द्राय ३, २,  
 २०<sup>६</sup>.  
 प्राधी(धि-इ)त- -तस्य गौय १६,  
 ४४; -ते विध ९३, ३.  
 प्राध्य(धि-अ)यन- -नम् कौय २, ६,  
 ५; ३, ८, ४; शांय २, १०, १××.  
 प्रा(प्र-अ)ध्व<sup>७</sup>- -ध्वम् वाधुश्रौ ४, १ :  
 २; ३, ५; ८; आपध १, २२, ८;  
 हिध १, ६, ८  
 प्राध्वम्/कृ पा १, ४, ७८.  
 प्रा(प्र-अ)ध्वन<sup>८</sup>- -ने आपश्रौ १७, १८,  
 ११.  
 प्रानून<sup>९</sup>- -नाय वौध १, १, ३०.  
 प्रा(प्र-अ)न्त<sup>१</sup>- -पाग २, १, १७<sup>६</sup>;  
 -न्तानि कौस् ९०, ४; -न्ते  
 अप ६४, १, ९; यासि १, ५५, २,  
 ७५; -न्तैः कौस् २, १९.

प्रान्त-भु(ष्/अ)न्त<sup>१</sup>- -पावा ४, १, ४.  
 २प्रान्त<sup>१</sup>- -पाग ४, १, ११०<sup>७</sup>.  
 प्रान्तायन- -पा ४, १, ११०; -नाः  
 वौश्रौप्र ३ : ४.  
 प्रा(प्र/आ)प्, प्राप्नोति आश्रौ ३,  
 १०, ३, ११<sup>८</sup>; शाश्रौ १५, १६, ७;  
 १८, १; काश्रौ; आपश्रौ<sup>९</sup> ९, ४,  
 ११; भाश्रौ ९, ५, २२<sup>१०</sup>; हिश्रौ  
 १५, १, ७५<sup>११</sup>; पा ५, २, ८; प्र<sup>१२</sup>  
 लाप्नोति शाश्रौ १६, २९, ११;  
 हिश्रौ १७, ७, १४; प्राप्नुवन्ति  
 आपश्रौ २३, १३, ४; हिश्रौ १८,  
 ४, ३९; आमिद्य; प्राप्नुते  
 शाश्रौ १५, १८, १; आमिद्य  
 ३, ३, २ : १०<sup>१३</sup>××; वौय;  
 ११××; वैय ४, ३ : १२; गौयि  
 २, २, २५; प्राप्नुवन्तिः प्राप्नुवन्ति  
 वौय २, ११, २०<sup>१४</sup>; प्राप्नुवाव  
 शाश्रौ ३, ८, १४; आपश्रौ; प्राप्नुयुः  
 माश्रौ ३, ५, १४<sup>१५</sup>; द्राश्रौ ३,  
 १, १२; लाश्रौ १, ९, १३; शंघ ५.  
 प्राप शाश्रौ १५, १८, १; १६,  
 २९, ६; शुभ्र १, १; प्राप्स्यन्ति  
 लु ३०, ६; अप २३, १४, २;  
 प्राप्स्यसि वृदे ७, १५२; प्राप्स्यथ  
 वृदे ६, १०; प्रापत् शाश्रौ १५,  
 १८, १; आपश्रौ १४, २६, ११;  
 आय ४, ४, २-४; कप्रय ३, १०;  
 १ प्रापन् आपनं २, १५, ३; द्राय  
 २, ८, १६; कौय ३, २, ६; शांय  
 ३, ३, १; नाय २, ११, १२; प्रापन्

a) व्यप. । व्यु. ? । b) वैप १ द्र. । c) वा. √नस, √कृ, √भू इत्येतद्बुद्धं द्र. ।

d) उप. = अनन्तर- । e) परस्परं पाभे. । f) प्र० इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. संस्कृत्युः टि.) : g) परस्परं पाभे. । h) प्रास. समासान्तः बच् प्र. (पा ५, ४, ८५) । वन्वनेनाऽऽनुकृत्ये वा. द्विवि. (वैतु. अभा. <प्राप्र-मा-ध्वम्- इति) । i) नाप. (देश-विशेष- [वैतु. MW. तद्वासिन्-]) । व्यु. ? । j) नाप. । प्रास. (तु. शक.) वा वस-वेति पागम. । k) तु. पागम. । l) = श्रोपधि-विशेष- । m) धक्षान्व- (नरि. द्र.) इति पाका. । n) पाभे. वैप २, ३खं. प्राप्नोति तैत्रा ३, ७, ३, ६ टि. द्र. ।

कौस् ६२, १५५; प्रा(प्र-आ/आ-  
आ)प्स्यत् वाधृश्रौ ३, २२: १३.  
प्राप्यते वौश्रौ २९, ८: १५; अप  
३१, १, २; ४; वौध २, १०, ५७.  
प्र...भापयते हिश्रौ १०, ५, ३८;  
प्रापयन्ति कौस् १७, १४; प्राप-  
येत् गोश्रु २, १, २१; अप १, ४९,  
४; १२, १, १०<sup>३</sup>; प्रापयेयुः  
अप्राय २, ९<sup>२</sup>.  
प्रेप्सति वौश्रौ १७, २३: ११;  
१२.  
प्रा(प्र-आ)पक- -कम् पावा १, १,  
७०; ३, ४, ११०.  
प्रा(प्र-आ)पण- -णम् मीस् ६, ८,  
२०; -णात् आपश्रौ ७, १८, ११;  
मीस् ५, १, ३३×५.  
प्रापणा(ण-अ)न्त- -न्ते काश्रौ  
१७, ४, १०; १८, २, ९.  
प्रा(प्र-आ)स, सा- -सः निसू २, ५:  
८; १५; कप्र ३, २, ७; अप;  
-सम् वौषि २, १०, ७; वैश्रु ३,  
७: २६; अप; पा ५, १, १०४;  
-सस्य अप ४८, ११७; या ३,  
२०; -सा वृदे ३, १३; ७, ४३;  
-साः काश्रौ १६, ३, ३०; जैश्रौका  
१६७; वौध २, ३, ५७; विध ५१,  
६३; -सान् वाश्रौ ३, २, ५,  
५०; -सानि कौषि ५१; -साम्  
जैश्रु १, २२: ३; -सायाम् कौश्रु  
१, ९, १७; शाश्रु १, १५, २२<sup>१०</sup>;  
-से काश्रौ २६, ४, ६; आपश्रौ  
१०, १०, २; वैश्रौ; या ३, २०;  
-सेषु गोश्रु २, ४, ५; मीस् ११,  
१, ११; -सौ विध ६७, ३७.  
प्राप्त-काल- -ले काश्रु ३९:

३; वाध १६, ९.  
प्राप्त-काल<sup>b</sup>- > ल-त्व-  
-त्वात् काश्रौ ७, १, २२; १२, ६,  
२९; मीस् ६, ५, ३८.  
प्राप्त-गृह-वृत्त, ता<sup>c</sup>- -त्तस्य वैश्रु  
५, ९: ९; -त्ताम् वैश्रु ५, ९: ११.  
प्राप्त-त्व- -त्वात् पावा ६, १, २.  
प्राप्त-निमित्त<sup>d</sup>- -त्ते आपध २,  
२८, १३; हिध २, ६, १२.  
प्राप्तनिमित्त-त्व- -त्वात्  
मीस् ६, ४, १२; ५, ५०.  
प्राप्त-प्रतिषिद्धत्व- -त्वात् मीस्  
१०, ८, १.  
प्राप्त-प्रतिषेध- -धः पावा ६,  
४, १७१.  
प्राप्त-यौव(न >)ना<sup>e</sup>- -नाम्  
वैश्रु ५, ९: १०.  
प्राप्त-लुप्त<sup>f</sup>- -सौ नाशि २, ५, ६.  
प्राप्त-वसु<sup>g</sup>- -सू या ६, २१.  
प्राप्त-सत्त्व<sup>h</sup>- -त्त्वम् अप ७, १, ७.  
प्राप्त-स्थान<sup>i</sup>- -नाः निसू ७, ५:  
४; ८, १०: १३<sup>१०</sup>.  
प्राप्ता(प्त-आ)दि- -दिषु पावा २,  
४, २६.  
प्राप्ता(प्त-आ)पन्न- -न्ने पा २, २,  
४.  
प्राप्ता(प्त-आ)पन्ना(ञ-अ)लंपूर्व-  
गतिसमास- -सेषु पावा २, ४,  
२६.  
प्राप्ता(प्त-अ)र्थ<sup>j</sup>- -र्थः विध ६,  
२१.  
प्रा(प्र-आ)सवत्- -वन्तः विध ४७,  
१०; -वान् वैश्रु ५, १५: ११.  
प्रा(प्र-आ)सि- -सिः जैश्रौका  
१४०; अश्र ११, ७<sup>१</sup>; मीस् १०,

५, १३; -सेः काश्रौ ७, ५, २१;  
मीस् १०, ७, ४१.  
प्राप्ति-प्रतिषेध- -धात् पावा ६,  
१, ३७.  
प्रा(प्र-आ)प्तुम् काश्रु ४२: २०;  
वौध ४, ७, ४.  
प्रा(प्र-आ)प्य आश्रौ ४, १०, ९;  
१३, ४×५; शाश्रौ.  
प्रे(प्र-ई)प्सत्- -प्सन्तः वौश्रौ १३,  
२२: ५<sup>१</sup>.  
प्रे(प्र-ई)प्सा- -प्सा या ६, ३२;  
-प्सायाम् अप ४८, ५५.  
प्रेप्सा-कर्मन्<sup>d</sup>- -र्मणः या २,  
१०; ४, ९; -र्मा या ७, १७.  
प्रे(प्र-ई)प्सु- -प्सुः वृदे ८, १३; या  
६, ३२.  
प्रा...प्रायताम्<sup>f</sup> अप्राय ५, ५<sup>१</sup>.  
प्रावंधायाः दंवि २, ६.  
प्रा(प्र-अ)भि/भू, प्र...अभिभूयासम्  
आपश्रौ ६, १८, २; हिश्रौ ६, ६,  
१७.  
प्रा(प्र-अ)भि/हे, प्राभिह्वयामि या २,  
२५.  
प्राभूतिक- प्र/भू द्र.  
प्रामाण्य- प्र/मा द्र.  
प्राय<sup>h</sup>-पाग ८, १, २७; पावाग २, ३,  
१८; -यात् मीस् १, २, ११;  
३, ४, ४; -ये शाश्रौ ७, २६,  
६; पा, पावा ५, २, ८२; -येण  
शाश्रौ ७, २५, २; २७, १६; अप.  
प्राय-दर्शन- -नम् पावा २, ३, २३;  
-नात् मीस् २, ३, १६; ३, ३, २.  
प्राय-भव- -वः पा, पावा ४, ३, ३९;  
प्रायभव-ग्रहण- -णम् पावा ४,  
३, ३९.

a) सायाः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. कौश्रु.) । b) वस. । c) वस. > पस. । d) वस.  
उप. भाप. । e) प्राप्ति इति पाठः? (तु. संस्कृतैः टि.) । f) सप्र. काठ ३५, ४ प्र...जायताम् इति पाठे. ।  
g) = प्रायस्- (वैप १ द्र.) । व्यु. ? ।

प्रात्ययम् वाश्रौ ३, ४, ५, ५.  
 प्रात्ययिक- प्रती(ति/इ) द्र.  
 प्राथमिक-, ष्य- प्रथम- द्र.  
 प्रादक्षिण्य- प्रदक्षिण- द्र.  
 प्रा-द्वाय प्र/दा द्र.  
 प्रादि- प्रम्. प्र द्र.  
 प्रादुराक्षि<sup>१</sup>- -क्षि- शुभ्र ३, ६०.  
 प्रादुस् (ः, र्, प्)<sup>१०</sup> वाधुश्रौ ४, ७५:  
 १८; ३०; मागृ १, १४, ३; अप  
 ७२, ४, ३; वाध १६, २४; शंघ  
 २४३, वृदे ५, ६७; ७, ४५; ६३;  
 या २, ८; ७, २३; २९; १४, २;  
 पाग १, १, ३७; ४, ६१; ७४.  
 प्रादुर/भू > प्रादुर-भाव- -वः  
 अप ६३, २, ८; -वात् आपगृ  
 ८, १३; -वै आगृ ३, ५, २; कौगृ  
 ३, ७, २; शांगृ ४, ५, २; पागृ.  
 प्रादुर्भावि-गमन- -नेषु अप  
 ७२, ४, ५.  
 प्रादुर्भावा(व-अ)न्त<sup>१</sup>- -न्तात्  
 लाश्रौ १०, १७, ९.  
 प्रादुर-भूत- -तः मागृ २, १३,  
 ६१; -तेषु आपश्रौ ७, २०, ३;  
 भाश्रौ १, २१, ८; वाश्रौ.  
 प्रादुप्/कृ पा १, ४, ७४.  
 प्रादुप्-करण- -णम् शाश्रौ २,  
 ६, ४; कप्र १, ९, १.  
 प्रादुप्करण-वेला- -लायाः  
 गोगृ १, १, २४.  
 प्रादुप्करण-हवनकाल- -लौ<sup>१</sup>  
 शांगृ १, १, २२.  
 प्रादुप्करण-होमकाल- -लौ<sup>१</sup>

आगृ १, ९, ४.  
 प्रादुप्-कृत- -नेषु कौस् १४१,  
 १६.  
 प्रादुप्कृता(त-अ)सि- -सिपु  
 गौघ १६, २३.  
 प्रादुप्-कृत्य गोगृ १, १, २७; २८;  
 द्रागृ १, ५, ७.  
 प्रादेश-, °शिक- प्रम्. प्र/दिश् द्र.  
 प्रादोप-, °षिक- १प्रदोप- द्र.  
 प्रादोहनायन-, °हनि- प्रदोहन- द्र.  
 प्राद्युम्नि- प्रद्युम्न- द्र.  
 प्रा(प्र-आ)/घा, प्रादध्युः अप्राय २, ९.  
 प्राधान्य- प्रम्. प्र/घा द्र.  
 प्रा(प्र-अ)घी (धि/इ), प्राधीयते<sup>१</sup>  
 जैगृ १, १४ : ११<sup>६</sup>; प्राधीयीरन्  
 शांगृ ६, २, १०; ३, ७; द्रागृ ३, २,  
 २०<sup>६</sup>.  
 प्राधी(धि-इ)त- -तस्य गौघ १६,  
 ४४; -ते विघ ९३, ३.  
 प्राध्य(धि-अ)यन- -नम् कौगृ २, ६,  
 ५; ३, ८, ४; शांगृ २, १०, १××.  
 प्रा(प्र-अ)ध्व<sup>१</sup>- -ध्वम् वाधुश्रौ ४, १ :  
 २; ३; ५; ८; आपघ १, २२, ८;  
 हिघ १, ६, ८  
 प्राध्वम्/कृ पा १, ४, ७८.  
 प्रा(प्र-अ)ध्वन<sup>१</sup>- -ने आपश्रौ १७, १८,  
 ११.  
 प्रानून<sup>१</sup>- -नात् वौघ १, १, ३०.  
 १प्रा(प्र-अ)न्त<sup>१</sup>- पाग २, १, १७<sup>६</sup>;  
 -न्तानि कौस् ९०, ४; -न्ते  
 अप ६४, १, ९; याशि १, ५५, २,  
 ७५; -न्तैः कौस् २, १९.

प्रान्त-पु(ष्य>)प्पा<sup>१</sup>- पावा ४, १, ४.  
 २प्रान्त<sup>१</sup>- पाग ४, १, ११०<sup>०</sup>.  
 प्रान्तायन- पा ४, १, ११०; -नाः  
 वौश्रौप्र ३ : ४.  
 प्रा(प्र/आ)प्, प्राप्नोति आश्रौ ३,  
 १०, ३१<sup>१</sup>; शाश्रौ १५, १६, ७;  
 १८, १; काश्रौ; आपश्रौ<sup>१</sup> ९, ४,  
 ११; भाश्रौ २, ५, २२<sup>१</sup>; हिश्रौ  
 १५, १, ७५<sup>१</sup>; पा ५, २, ८; प्र<sup>१</sup>  
 आप्नोति शाश्रौ १६, २९, ११;  
 हिश्रौ १७, ७, १४; प्राप्नुवन्ति  
 आपश्रौ २३, १३, ४; हिश्रौ १८,  
 ४, ३९; आमिगृ; प्राप्नुतु  
 शाश्रौ १५, १८, १; आमिगृ  
 ३, ३, २ : १०<sup>१</sup>××; वौगृ;  
 १<sup>१</sup>प्राप्नुवानि आमिगृ ३, ३, २ :  
 ११××; वैगृ ४, ३ : १२; गौपि  
 २, २, २५; प्राप्नुवानिऽप्राप्नुवानि  
 वौगृ २, ११, २०<sup>१</sup>; प्राप्नुयात्  
 शाश्रौ ३, ८, १४; आपश्रौ; प्राप्नुयुः  
 माश्रौ ३, ५, १४<sup>१</sup>; द्राश्रौ ३,  
 १, १२; लाश्रौ १, ९, १३; शंघ ५.  
 प्राप शाश्रौ १५, १८, १; १६,  
 २९, ६; शुभ्र १, १; प्राप्स्यन्ति  
 सु ३०, ६; अप २३, १४, २;  
 प्राप्स्यसि वृदे ७, १५२; प्राप्स्यथ  
 वृदे ६, ९०; प्रापत् शाश्रौ १५,  
 १८, १; आपश्रौ १४, २६, ११;  
 आगृ ४, ४, २-४; अप्राय ३, १०;  
 १<sup>१</sup>प्रापन् आपमं २, १५, ३; आगृ  
 २, ८, १६; कौगृ ३, २, ६; शांगृ  
 ३, ३, १; मागृ २, ११, १२; प्रापम्

a) व्यप. । व्यु. ? । b) वैप २ द्र. । c) वा. √अस्, √कृ, √भू इत्येतद्गुक्तं द्र. ।

d) उप. = अनन्तर- । e) परस्परं पाभे. । f) प्र० इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. संस्कृतः टि.) । g) परस्परं पाभे. । h) प्रास. समासान्तः अच् प्र. (पा ५, ४, ८५) । बन्धनेनाऽऽनुकृत्ये वा. क्तिवि. (वैतु. अभा. <प्रा[प्र-आ]-ध्वन्- इति) । i) नाप. (देश-विशेष- [वैतु. MW. तद्वासिन्-]) । व्यु. ? । j) नाप. । प्रास. (तु. शक.) वा वस. वेति पागम. । k) तु. पागम. । l) = औपधि-विशेष- । m) धक्षान्त- (परि. द्र.) इति पाका. । n) पाभे. वैप २, ३६. प्राप्नोति तैत्रा ३, ७, ३, ६ टि. द्र. ।

कौस् ६२, १५५; प्रा (प्र-आ/आ-  
आ)प्स्यत् वाधूश्रौ ३, २२ : १३.  
प्राप्यते वौश्रौ २९, ८ : १५; अप  
३१, १, २; ४; वौध २, १०, ५७.  
प्र...आपयते हिश्रौ १०, ५, ३८;  
प्रापयन्ति कौस् १७, १४; प्राप-  
येत् गोश्रु २, १, २१; अप १, ४९,  
४; १२, १, १०<sup>३</sup>; प्रापयेयुः  
अप्राय २, ९.  
प्रेप्सति वौश्रौ १७, २३ : ११;  
१२.  
प्रा(प्र-आ)पक- -कम् पावा १, १,  
७०; ३, ४, ११०.  
प्रा(प्र-आ)पण- -णम् मीस् ६, ८,  
२०; -णात् आपश्रौ ७, १८, ११;  
मीस् ५, १, ३३××.  
प्रापणा(ण-अ)न्त- -न्ते काश्रौ  
१७, ४, १०; १८, २, ९.  
प्रा(प्र-आ)स, सा- -सः निस् २, ५ :  
८; १५; कप्र ३, २, ७; अप;  
-सम् वौषि २, १०, ७; वैश्रु ३,  
७ : २६; अप; पा ५, १, १०४;  
-सम् अप ४८, ११७; या ३,  
२०; -सा वृदे ३, १३; ७, ४३;  
-साः काश्रौ १६, ३, ३०; जैश्रौका  
१६७; वौध २, ३, ५७; विध ५१,  
६३; -सान् वाश्रौ ३, २, ५,  
५०; -सानि कौषि ५१; -साम्  
जैश्रु १, २२ : ३; -सायाम् कौश्रु  
१, ९, १७; शांश्रु १, १५, २२<sup>१०</sup>;  
-से काश्रौ २६, ४, ६; आपश्रौ  
१०, १०, २; वैश्रौ; या ३, २०;  
-सेषु गोश्रु २, ४, ५; मीस् ११,  
१, ११; -सौ विध ६७, ३७.  
प्रास-काल- -ले काश्रु ३९ :

३; वाध १६, ९.  
२ प्रास-काल<sup>b</sup>- > ल-त्व-  
-त्वात् काश्रौ ७, १, २२; १२, ६,  
२९; मीस् ६, ५, ३८.  
प्रास-गृह-वृत्त, त्ता<sup>c</sup>- -त्तस्य वैश्रु  
५, ९ : ९; -त्ताम् वैश्रु ५, ९ : ११.  
प्रास-त्व- -त्वात् पावा ६, १, २.  
प्रास-निमित्त<sup>b</sup>- -त्तं आपध २,  
२८, १३; हिध २, ६, १२.  
प्रासनिमित्त-त्व- -त्वात्  
मीस् ६, ४, १२; ५, ५०.  
प्रास-प्रतिषिद्धत्व- -त्वात् मीस्  
१०, ८, १.  
प्रास-प्रतिषेध- -धः पावा ६,  
४, १७१.  
प्रास-यौव(न >) ना<sup>b</sup>- -नाम्  
वैश्रु ५, ९ : १०.  
प्रास-लुप्त<sup>d</sup>- -सौ नाशि २, ५, ६.  
प्रास-वसु<sup>b</sup>- -सु या ६, २१.  
प्रास-सत्त्व<sup>b</sup>- -त्त्वम् अप ७, १, ७.  
प्रास-स्थान<sup>b</sup>- -नाः निस् ७, ५ :  
४; ८, १० : १३<sup>१०</sup>.  
प्रासा(स-आ)दि- -दिषु पावा २,  
४, २६.  
प्रासा(स-आ)पन्न- -न्ने पा २, २,  
४.  
प्रासा(स-आ)पन्ना(ज-अ)लंपूर्व-  
गतिसमास- -स्त्रेषु पावा २, ४,  
२६.  
प्रासा(स-अ)र्थ<sup>b</sup>- -र्थः विध ६,  
२१.  
प्रा(प्र-आ)सवत्- -वन्तः विध ४७,  
१०; -वान् वैश्रु ५, १५ : ११.  
प्रा(प्र-आ)सि- -सिः जैश्रौका  
१४०; अत्र ११, ७<sup>१</sup>; मीस् १०,

५, १३; -सेः काश्रौ ७, ५, २१;  
मीस् १०, ७, ४१.  
प्रासि-प्रतिषेध- -धात् पावां ६,  
१, ३७.  
प्रा(प्र-आ)प्तुम् काश्रु ४२ : २०;  
वौध ४, ७, ४.  
प्रा(प्र-आ)प्य आश्रौ ४, १०, ९;  
१३, ४×४; शांश्रौ.  
प्रे(प्र-ई)प्सत्- -प्सन्तः वौश्रौ १३,  
२२ : ५<sup>१</sup>.  
प्रे(प्र-ई)प्सा- -प्सा या ६, ३२;  
-प्सायाम् अप ४८, ५५.  
प्रेप्सा-कर्म<sup>b</sup>- -र्मणः या २,  
१०; ४, ९; -र्मा या ७, १७.  
प्रे(प्र-ई)प्सु- -प्सुः वृदे ८, १३; या  
६, ३२.  
प्रा...प्रायताम्<sup>f</sup> अप्राय ५, ५<sup>१</sup>.  
प्रावंधायाः वंधि २, ६.  
प्रा(प्र-अ)भि/भू, प्र...अभिभूयासम्  
आपश्रौ ६, १८, २; हिश्रौ ६, ६,  
१७.  
प्रा(प्र-अ)भि/हे, प्राभिह्वयामि या २,  
२५.  
प्राभूतिक- प्र/भू द्र.  
प्रामाण्य- प्र/मा द्र.  
प्राय<sup>g</sup>-पाग ८, १, २७; पावाग २, ३,  
१८; -यात् मीस् १, २, ११;  
३, ४, ४; -ये शांश्रौ ७, २६,  
६; पा, पावा ५, २, ८२; -येण  
शांश्रौ ७, २५, २; २७, १६; अप.  
प्राय-दर्शन- -नम् पावा २, ३, २३;  
-नात् मीस् २, ३, १६; ३, ३, २०.  
प्राय-भव- -वः पा, पावा ४, ३, ३९;  
प्रायभव-ग्रहण- -णम् पावा ४,  
३, ३९.

a) सायाः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. कौश्रु.) । b) वस. । c) वस. > पस. । d) वस.  
उप. भाप. । e) प्रासि इति पाठः? (तु. संस्कृतः टि.) । f) सप्र. काठ ३५, ४ प्र...जायवाम् इति पाठे. ।  
g) = प्रायस्- (वैप १ द्र.) । व्यु. ? ।

प्राय-वचन- नात् पावा ३, ३,  
 ११९; १२३; मीसू २, २, १२.  
 प्राय-शस्त्र (:) अप ५२, २, ४;  
 ६८, १, ३६; वृदे ३, ५२; १५१.  
 प्राया(य-आ)पत्ति- -त्ते: मीसू १२,  
 ३, २१.  
 द्रा(प्र-अ)य-, ष्यण- प्रमृ. प्रे(प्र✓इ)  
 द्र.  
 प्रायत्य- प्र✓यच्छ द्र.  
 प्रायश्चित्ति- प्रायस्- द्र.  
 प्रायस्(, इ)<sup>०</sup>- -य: द्राश्रौ १२, २, ३४;  
 लाश्रौ ४, ११, ३; ऋप्रा १६, ९×४  
 प्रायश्चित्त<sup>०</sup>- पाग ६, ३, १०८<sup>०</sup>;  
 पागवा ६, १, १५७<sup>०</sup>; -त्त: माश्रौ  
 ९, १०, १२; -त्तम् आश्रौ ६, ८,  
 ७; ८, १२, १४; शाश्रौ २, ७, ६;  
 ३, १९, १; ७, ८; २१, १; १२;  
 ५, १७, १२; काश्रौ १, २,  
 २२; २५, १, १; ५, ५; आपश्रौ  
 ९, १, १; २९; ७, ११; १०, १२;  
 १५, ८; २०, २; १४, २५, ३; ५<sup>१</sup>;  
 २६, ७; ८; १५, १९, ६; वौश्रौ  
 १, २० = १८; ४, १० = २०;  
 २०, १९ = ३३; ३४; ३६;  
 २३ = १०; १४; २६ = ३६;  
 २३, ४ = २१; ८ = २७; २४,  
 २२ = १२; ३३ = १४; ३७ = १५;  
 ३८ = ४; २६, ५ = ५; २७,  
 २ = ३; ४ = ९; ५ = ६; १२ = २;  
 २९, १ = ५; २ = २; ८; १२-१४;  
 १८; ३ = ८; १२-१४; ४ = ६;  
 १३; २५; १२ = १९; माश्रौ ९,  
 १, १; २, १४; ६, १३; ११, १३;  
 १६, ८; १७, १०; ११, २०, २;  
 माश्रौ ३, १, ४; २२; वाधूश्रौ ३,  
 १९ = १८; १०६ = ५; ६; ४, ८८ =  
 २; वैश्रौ २०, १ = ५; ११ = ६;

१३ = १०; १४ = ६; ३९ = ४;  
 ११; २१, ११ = ३; १३ = ५; १५:  
 ४; १८ = ६; हिश्रौ ३, १, २७;  
 १५, १, १; १२; ३२; २, ३३; ३, ३;  
 ४, २८; ५, ११; १२; ६, २३; ४१;  
 ७, २४; २५; ८, ४८<sup>१</sup>; द्राश्रौ  
 १२, ३, १; २<sup>१</sup>; लाश्रौ ४, १०, ५;  
 ११, ४; निसू ६, ९ = ९; १२ =  
 २३; शांय २, १३, ३; पाग ३,  
 १२, ११; आमिग १, ६, ३ = ४;  
 ५५; ६०; २, ४, ७ = १३; ५, ४ =  
 ५; ६, ५ = ३; ७, १ = ६; ४ = ८;  
 १५; ९ = ३३; ४१; ३, २, १ = १२;  
 वौग २, ९, ८; ४, ६, १; ७, १<sup>३</sup>; ९,  
 ७-१०; १२; १०, १<sup>३</sup>; ३<sup>३</sup>; ११, १;  
 २; वौपि २, ६, १२; ८, १; माग  
 २, १६ = २; ३, १५ = १३<sup>१</sup>; २० =  
 २; २१ = ४; माग २, १४, २२;  
 वाग १, १; वैग ६, १ = १; १४;  
 ३ = ६; ४ = ९; १३; ५ = १; ११ =  
 ६; १२ = ११; १३ = ८; १४ = २;  
 ३; १५ = १०; १६ = १५; १७ =  
 ११; १८ = ७; १९ = १; २; २० =  
 १; ७, ३ = ६; ८; ४ = १४; १८;  
 २०; ७ = ७; ८ = ९; हिपि २३ =  
 १४; गोग १, ९, १६; ३, ३, २९;  
 जैग १, १२ = ५७; द्राग १, ३,  
 १५; २, २, १४; कप्र २, ९, १९;  
 १०, १६; ३, ४, ५; ६, १६; १८;  
 ८, ९; अप्राय १, १; ३; ५, १; अप  
 ३३, १, ४-६; ३७, ८, १; वाध ५,  
 ४; १६, ३५; १७, ६६; २०, १;  
 २२, २; २३, ४७; २५, २; शंघ  
 ४७; ३७९; ३९१; ३९२<sup>३</sup>; ३९४;  
 ३९५<sup>३</sup>; ४३३; आपध १, १, ३४;  
 २, ६; २५, १४; २, २, ८; वौध १,  
 ५, १२३; २, १, ६३; ३, १०, ४;

विध २२, ९; ३९, २; ४१, ५; ४२,  
 २; ४५, ३३; ५२, १४; ५४, १;  
 २७; २९; ३४; हिघ १, १, ३२;  
 ३९; ७, ११; २, १, ३०; गौध १९,  
 ४; २०, १४; २२, १; २४, १; ९;  
 २५, ९; काध २७० = ८; २७१ =  
 ३; ५; २७२ = ८; २७३ = १; २७४ =  
 ४; २७६ = ३; ८; २७८ = १०;  
 सुधप ८४ = १०; ११; ऋत्र २,  
 १०, १६२; १६५; अत्र २०, ९६;  
 अप्रा ३, ४, १<sup>१</sup>; मीसू २, ४, २१;  
 ६, ४, १०; ५, ४५; ४९; ६, ३५; ९,  
 ४, २६; -त्तस्य निसू ६, १२ =  
 २४; -त्तात् वौध २, ७, २५;  
 -त्तानाम् अप्राय ६, १०; -त्तानि  
 काश्रौ २५, १४, ३५; आपश्रौ ९,  
 १, २; १५, १७, १०; वौश्रौ १,  
 २१ = ९; २०, २३ = १२; २७,  
 १ = १; २८, ९ = २८; १० = १;  
 ११; २९, ३ = १; माश्रौ ९, १,  
 २; ११, १८, १; माश्रौ ३, १, १;  
 वैश्रौ २०, १ = ८; हिश्रौ १५,  
 १, २; आमिग २, ७, ८ = १; ९ =  
 १; वौग ४, १, १; ८, १; वैग ३,  
 ८ = ३; अप्राय १, १; ३, ७; ६,  
 ९; शंघ २६१; वौध १, १,  
 १६; २, १, १; ४, १, १;  
 २, १; ३; ३, १; ४, १; सुध ६६;  
 चात्र ३८ = २; -त्ताय वौश्रौ ९,  
 २ = ३२; ४ = २५; १७ = १२; १०,  
 ८ = ८; १३ = १३; वैश्रौ  
 १३, १ = १८; -त्ते आश्रौ १, १,  
 १६; वैश्रौ २०, २६ = ३<sup>१</sup>; वौग  
 २, ५, ६५; वैग ६, १ = १३; कप्र  
 ३, ८, ७; वौध २, ७, २५; सुधप  
 ८५ = ५; -त्तेन वाध २२, १२;  
 गौध २०, १०; -त्तेषु शाश्रौ ३,

a) व्योपपत्तेः इति जीतं. प्रयासं. । b) वैप १ द्र. । c) तु. पागम. । d) तु. पाका. पात्ति. ।

१९,६; काश्रौ १,८,११; अप्राय  
५,५; मीसू १२,३,१६.  
प्रायश्चित्त-करण-णे वौश्रौ २०,  
१८ : ३०; २६ : ३५; २२, ३ :  
१८; २३, ४ : १९; ८ : १९; २६.  
प्रायश्चित्त-कर्मन्-र्म काश्रौसं  
३३ : १९.  
प्रायश्चित्त-कृत्य-र्ये निस् ६,  
१० : ३५; ७, ७ : ४०.  
प्रायश्चित्त-दर्शन-नात् शांष्ट  
१,३,९.  
प्रायश्चित्त-देवता-ताः शुभ्र ४,  
११५<sup>६</sup>;  
प्रायश्चित्त-महाधो(णा >)ण<sup>०</sup>-  
णः विध १,५<sup>०</sup>.  
प्रायश्चित्त-वत्-वति आपघ १,  
१८,११; हिघ १,५,८०.  
प्रायश्चित्त-विधान-नात् काश्रौ  
१,२,१९; मीसू ६,३,७; ६,२९.  
प्रायश्चित्त-श्रुति-तेः काश्रौ ४,  
३,१५.  
प्रायश्चित्त-संयोग-नात् काश्रौ  
२५,१४,३२.  
प्रायश्चित्त-समुच्चय-यम् वौश्रौ  
२९,१२ : १; वौष्ट ४,९,१.  
प्रायश्चित्ता(त-आ)ज्याहुति-  
-तीः गोष्ट २, ५, २; गौघ २५,  
३.  
प्रायश्चित्ता(त-आ)दि-दि  
आमिष्ट १, ६, ३ : २६; वैष्ट ३,  
२३ : १३.  
प्रायश्चित्ता(त-आ)न्त-न्ते वैष्ट  
७,३ : ९; विघ ५१,४.  
प्रायश्चित्ता(त-आ)र्थे-र्थेः वौश्रौ

२४,१५ : ४; आपघ १,२४,४<sup>६</sup>;  
-र्थम् हिघ १,६,५३<sup>६</sup>; वृदे ८,  
६९; -र्थाः निस् ६, १२ : २२;  
-र्थे निस् ८,६ : ७; -र्थेन निस्  
६,३ : ८.  
प्रायश्चित्ता(त-आ)र्थक-कः कप्र  
२,९,११.  
प्रायश्चित्ता(त-आ)र्ध-धम् विघ  
५४,३३.  
प्रायश्चित्ता(त-आ)हुति-त्यः  
वाश्रौ १,१,४, १३; ६, ४; शुभ्र  
४,१२१; -ती शांश्रौ ३,१९,३;  
-तीः शांश्रौ ८,८,१०; वाश्रौ १,  
३,७,२०; वाष्ट १,२९; २, १०;  
वैष्ट ६,१५ : ६; जैष्ट १, ४ : ६.  
प्रायश्चित्ति(क >)की-क्यः  
आश्रौ २,१५,४.  
प्रायश्चित्तिन्-ती हिश्रौ १०,  
७,१८; कागृउ ४६ : ११; गौघ  
१२,४५.  
√प्रायश्चित्तीय, प्रायश्चित्तीयते  
याशि २,११६.  
प्रायश्चित्ती(य >)या-याम्  
आमिष्ट २,७,२ : २२; ३,२,५ :  
२; ७ : ३; वैष्ट ६,१६ : ८.  
प्रायश्चित्ते(त-इ)ष्टि-ष्टिः माश्रौ  
५,१,१, २; -ष्टीनाम् आश्रौ ३,  
१३,१४.  
प्रायश्-चित्ति<sup>१</sup>-पाग ६,३, १०९<sup>१</sup>;  
पागवा ६, १, १५७<sup>१</sup>; -त्तयः  
जैष्ट १, २२ : २१; २२; -त्तिः  
आश्रौ ३, १०, १; आपश्रौ ५,  
२९, १३; ९, ४, १३; ८, ३;  
१५,१५; २१; १०,१७,७; वौश्रौ

३, १४ : १६; १४, ३ : २०;  
२६ : २१<sup>१</sup>; २९ : १५<sup>१</sup>; २८;  
१५, ८ : १५; १८, ११ : २२;  
२७,३ : ५; ९; ५ : २; १२; ९ :  
१०; १० : १; ११ : ४; १२ :  
२६; १३ : ११; २८, ६ : ११;  
२९, १ : १६; ४ : ९; १५; ११ :  
११; १२ : १४; भाश्रौ ९,१७,  
८; १०,१०,२; माश्रौ २, १, ३,  
१; ५, १, १, २७; ५, २९; ६३;  
६, २५; ४२; ७, २९; ९, २७;  
१०, १६; ३६; ४२; ५८; ६५;  
२, १, २६; ७, १४; २६; वाधुश्रौ  
२, १३ : ६; ३, ४४ : २; ५;  
४६ : ३; ३; १८; वैश्रौ १२,  
१३ : ९; १८, ७ : ५; २०, ३५ :  
३; हिश्रौ १५, १, ४१; २, २८;  
४, २७; ३५; ३९-४१; ५, ६;  
†आपमं १, १०, ३; ६; कौष्ट १,  
११, ४<sup>६</sup>††; २, ८, ३; शांष्ट १, १८,  
३<sup>६</sup>††; ६, २, ११; पाष्ट १, १०,  
४; ११, २<sup>६</sup>††; †आमिष्ट १, ५,  
५ : १; ३; ५; ७; कागृ २८, ४<sup>३</sup>††;  
वौष्ट १, ६, १२††; ४, ५, १; ८, १;  
वौपि ३, १, १७††; †भाष्ट १, १९;  
१३; १७; हिष्ट १, २४, १<sup>१</sup>††;  
जैष्ट १, १३ : १०; †२२ : १४;  
१६; १८; १९; द्राष्ट १, ४, १२††;  
कौसू ९४, १८; ९५, ५; ९६, ५;  
९८, ४; ९९, ५; १००, ४; १०१,  
४; १०२, ५; १०३, ४; १०४,  
४; १०५, २; १०७, ४; १०८,  
४; १०९, १०; ११०, ८; १११,  
१०; ११२, ३; ११३, ४; ११४,

a) ष्ठा इति म (मा ३९, ५) । b) विप. (विष्णु-) । वस. । c) प्रायश्चित्तमयोवीरः इति जीसं. ।  
d) सप्र. र्थः <> र्थम् इति पाभे. । e) वा. क्रिवि. । f) वस. । g) विप. > नाप. (इष्टि-विशेष-) ।  
तस्येदमीयत् ठक् प्र. । h) वैष १ द्र. । i) तु. पागम. । j) तु. पाका. पासि. । k) पाभे. वैष २, ३खं. प्रायश्चित्ते  
(सं१) मंत्रा १, ४, १ टि. द्र. ।

४; ११५, ३; ११७, ५; ११८, २; १२१, २; १२३, २; १२४, ७; १२५, ४; १२६-१२७, १४; १२८, ६; १२९, ४; १३०, ३; १३१, ३; १३२, २; १३३, ८; १३४, २; १३५, १२; १३६, १३; १४१, ४५; अप्राय १, २; ३; ५; २, १; २-५; ७; ९; ३, ८; ४, २; अप ३७, १, ११; २, १; ३, १; ४, २; ६, १; ७, १; ८, २; ९, ४; २०, १; वौष २, १, ५१; २, ६५; -त्तिभिः कप्र २, ९, १२; -त्तिम् काश्रौ १६, ६, ३१; आपश्रौ ९, १६, १२; भाश्रौ ९, १८, ३; १९, ६; ९; वाधूश्रौ २, १३ : ४; ३, ४६ : ३; १३; हिश्रौ १५, ४, ५; अप्राय २, २; ३; अप २९, २, २; अप्रा ३, ४, १; -त्तीः हिगृ १, २३, ११; जैगृ १, ११ : २२; २२ : १३; अप्राय ३, १०; -त्तीनाम् वाधूश्रौ ३, ४४ : १; -त्तीन् आपमं १, १०, ३-६; पागृ १, ११, २; आमिगृ १, ५, ५ : १; ३; ५; ७; ६, ३ : ६१; कागृ २८, ४; वौगृ १, ६, १२-१५; सागृ १, १९ : १३; १६; हिगृ १, २४, १; गोगृ २, ५, २; जैगृ १, २२ : १३; १५; १७; १९; वैष २, १, ९. प्रायश्चित्ति-कल्प- -ल्पः माश्रौ ५, १, ५, ३. प्रायश्चित्ति-पर्यन्त- -न्तम् हिगृ १, २३, ११. प्रायश्चित्ति-सामन्- -म निस् ५, १ : १७; ८, २ : १५; ६ : ४१;

९ : ३३. प्रायश्चित्त्य(त्ति-अ)न्त<sup>b</sup>- -न्तम् काश्रौ १७, १, १. प्राय(स्य>)स्या<sup>c</sup>- -स्या ऋप्रा १६, ६५. प्रायो-दर्शन- -नम् पावा २, ३, २३. प्रायो-देव(त>)ता<sup>b</sup>- -ता या ७, ४. प्रायाजिक- प्र<sup>✓</sup>युज् द्र. प्रायुज- प्र<sup>✓</sup>युज् द्र. ङ्प्रा(प्र-आ)युस्<sup>d</sup>- -युः आपश्रौ ६, १९, १; हिश्रौ ६, ६, १७, प्रायोगिक- प्र<sup>✓</sup>युज् द्र. ङ्प्रा(प्र<sup>✓</sup>अ)र् इ प्र<sup>...</sup>इयमिं आश्रौ ६, ४, १०; वौश्रौ १३, ३५ : ४; प्र(इयमिं)शाश्रौ ९, १८, ५; १४, ५४, २; वैताश्रौ २६, १०. प्र(आरः) ऋअ २, ३, ७. प्रा(प्र-आ) <sup>✓</sup>रभ, म्म् > प्रा-रब्ध, व्धा- -व्धम् वैश्रौ २०, १८ : ५; -व्धायाम् वैश्रौ २०, ४ : २; -व्धे वैश्रौ १६, १ : ८; २०, ४ : ३. प्रा-रभ्य अप ७०, ११, २. प्रा-रम्भण- (>म्भणीय- पा.) पाग ५, १, १११. प्रा-रम्भमाण- -णः अप ३०<sup>e</sup>, १, १. प्रारोह- प्र<sup>✓</sup>रूह द्र. प्रारोहि<sup>f</sup>- -हयः वौश्रौ ४९ : ३. प्रा(प्र<sup>✓</sup>अ)र्चुं. प्रार्चन्ति या ५, ५; प्र<sup>...</sup> अर्चन्ति लाश्रौ ६, ४, १२; प्र(अर्चन्ति) साभ २, ९२५; प्र<sup>...</sup> अर्चन् आश्रौ ८, ९, २; प्र<sup>...</sup> अर्चन् ऋअ २, ७, ४३; ङ्प्रा<sup>...</sup> अर्च, > चा आश्रौ ५, ९, २१; या ११, ९७; ङ्प्रा(अर्च, >

चा) आश्रौ ४, १३, ७; ५, ९, १५; शाश्रौ; ङ्प्रा(अर्च, > चा ऋप्रा ७, ३०; ३४; गुप्रा ३, ९७; ४, ७८; ङ्प्रा(अर्च आश्रौ ६, २, ९; या ४, २४; ११, ९; प्र<sup>...</sup> अर्चत > ता या ४, २४; ङ्प्रा<sup>...</sup> अर्चत, > ता) आश्रौ ५, १४, १८; ८, ७, २३; शाश्रौ; ङ्प्रा(प्र-अर्चत) आश्रौ ६, २, ६; शाश्रौ ९, ६, १२; वौश्रौ १३, १४ : ११; माश्रौ. प्रा(प्र<sup>✓</sup>अ)र्ज, प्रार्जयति वृदे २, ३७; या ३, ५. प्रा(प्र-अ)र्जयित्- -ता या १०, १०. प्रार्जित-> त्त-होष<sup>f</sup>-> षिन्- -ः षिणौ या ५, २२. प्रा(प्र-अ)र्ण- पावा ६, १, ८८. प्रा(प्र<sup>✓</sup>अ)र्थुं. प्रार्थयते अप ४१, ३, १; वैष १, ७, ८; प्रार्थयति अत्र ७, ७८; ८१; प्रार्थयन्ते वैष १, ९, २-४; अत्रार्थयत्<sup>f</sup> अत्र १, ८; ९; प्रार्थयत् अत्र २, १३; १९, ७२; प्रार्थयत हिष १, २, ६६; प्रार्थयत् कप्र २, ४, ९; आपष १, ७, ९; प्रार्थयेष्वम् अप ३१, २, २. प्रा(प्र-अ)र्थेन- -नम् अत्र ५, ६. प्रार्थनीय- -यम् अत्र २, १८. प्रा(प्र-अ)र्थेना- -नासु कप्र १, ४, ९. प्रा(प्र-अ)र्थयत्- -यन् अत्र ३, १५. प्रा(प्र-अ)र्थयमाण- -णः कौसू १८, ३०; ३१. प्रा(प्र-अ)र्थयमान- -नः अप ३१, २, ४. प्रा(प्र-अ)र्थित- -तः वैगृ २, ६; १६.

a) पाप्मे. वैष २, ३६. मंत्रा १, ४, १-४ टि. द्र. । b) वत्त. । c) भवार्थे यत् प्र. (तु. भाष्यम्) । d) वैष १ द्र. । e) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । f) कत्त. । उप. वैष १, १८८० e द्र. । g) पाठः प्रा(प्र-आ)र्था इति शोधः (तु. अत्र २, १३) । h) परस्परं पाप्मे. ।



प्रार्थित-प्रदान- -नेन विध २४, २२.  
 प्रा(प्र-अ) व्यं अत्र ४, ३९; ५, २४.  
 प्रा(प्र/अ)र्द्ध, प्रार्दयति या ६, ३२.  
 प्रा(प्र-अ) र्द्धक- -कः या ६, ३२.  
 प्रा(प्र/अ)र्प्, प्रार्पयति माश्रौ १, १, १, १८; ७, १, ८; †प्रार्पयतु आपश्रौ १, २, ४; वौश्रौ.  
 प्रा(प्र-अ)र्षण<sup>a</sup>- -णः आपमं २, ११, २७†.  
 †प्रा(प्र/अ)र्ष, प्र(अर्षति) ऋअ २, ९, २०<sup>b</sup>; ३४; प्र(अर्षन्ति) ऋअ २, ९, ८६; ३, २९; प्र(अर्षसि) ऋअ २, ९, ४४; साअ १, ५०९; उस् ५, ४.  
 प्रालेपिका- प्र/लिप् द.  
 प्रालेय- प्र/ली द.  
 प्रा(प्र/अ)ञ्, प्रावति माश्रौ ९, १३, १; प्र...अवतु शाश्रौ ८, १६, १३†; †प्र(अवतु) शाश्रौ ८, १६, १३; १७, १; १८, १××; वौश्रौ; प्रा(प्र-अ)वताम्<sup>c</sup> आश्रौ ३, १२, २३; माश्रौ ९, १३, १; माश्रौ; प्र...अवताम्, प्र(अवताम्) शाश्रौ ८, १९, १३†; प्रावन्तु या १२, ४५†; प्र...अवन्तु शाश्रौ ८, २०, १३†; †प्र(अवन्तु) शाश्रौ ८, २०, १३; २१, १; २३, १; †प्र...अव वाधुश्रौ ४, ४७ : ७; आपमं १, ३, ५; पाण्ड; †प्रा(प्र-अ)वतम् आपश्रौ ४, ४, १; माश्रौ ४, ४, ३; हिश्रौ ६, १, २६; प्रा(प्र-अ)वत, > ता शुप्रा

३, ९७†; प्रा(प्र-अ)वत् या ६, २†.  
 †प्र(प्र...अविय) आश्रौ ७, १२, १६; शाश्रौ १०, ६, १६; ऋअ २, ८, ३७; ऋप्रा १७, ३६.  
 †प्र...अविपत् आश्रौ २, २०, ४; ऋप्रा ५, ५९; †प्र...अविपुः<sup>d</sup> शाश्रौ १२, २४, १.  
 †प्रा(प्र-अ)वित्- -ता वृदे ३, ७९; -तारः काश्रौ ३, २, १३; आपश्रौ २, १६, ११†; वौश्रौ १, १५ : ३०; माश्रौ.  
 †प्रा(प्र-अ)वित्<sup>e</sup>- -त्रम् आश्रौ १, ४, १०; ५, ३, ९; शाश्रौ १, ६, १४.  
 प्रा(प्र-अ)व्य<sup>e</sup>- -व्यम् वौश्रौ ९, १० : २१.  
 प्रावचन- प्र/वच् द.  
 †प्रावण<sup>a</sup>- -णमिः ऋप्रा ९, ५०; शुप्रा ३, १०५××; तैप्रा ३, ५; ७, ७.  
 प्रा(प्र-अ)व/निञ्, प्र(अवनेनिग्धि) कौस् ६४, ९†.  
 प्रा(प्र-अ)व/यम् (नियमने), प्र(अव...अवस्त) ऋअ २, १, ५६.  
 प्रावरण- प्र/वृ (आच्छादने) द.  
 प्रा(प्र-अ)व/रुध् > प्राव-रुद्धि- -द्धयै हिश्रौ १७, ५, ३२†.  
 प्रावर्गिक- प्र/वृज् द.  
 प्रा-वर्षिन्- प्र/वृप् (परि.) द.  
 प्रावार- प्र/वृ (आच्छादने) द.  
 प्रावास- प्रभृ. प्र/वस् (यात्रायाम्) द.  
 प्रावाहणायन-, णि-, णेय-

२प्रवाहण- द.  
 प्रावाहार्य<sup>b</sup>- -र्याः वौश्रौ ४१ : ३.  
 प्राविक्य- प्रविक- द.  
 प्रा(प्र-अ)/विष्, प्राविवेश वृदे ६, १२.  
 प्रा-वृत्- , न्य प्र/वृ (आच्छादने) द.  
 प्रा-वृप्- , णिक- प्रभृ. प्र/वृप् द.  
 †प्रावेप- -पाः<sup>h</sup> ऋअ २, १०, ३४; वृदे ७, ३६; या ९, ८६; -वौ वाश्रौ ३, ३, ४, १९†.  
 प्रावेपिन्<sup>i</sup>- -पी आपश्रौ २२, १२, ६.  
 प्रावेशन- प्र/विष् द.  
 प्रा(प्र/अ)ञ् (व्याप्तौ), †प्र(अश्याः) शाश्रौ १०, ६, १८; ऋअ २, ५, ४२; वृदे ५, ३८; शैशि ५५.  
 प्राश्यति द्राश्रौ २, ३, १०; ताश्रौ १, ७, ९.  
 प्राश्रुते या २, १४.  
 प्रा(प्र-अ)ष्ट- > ष्ट-वर्ण-ग(र्भे >) भर्भ- -र्भाः या १०, ३९.  
 प्रा(प्र/अ)ञ् (भोजने), प्राश्नाति शाश्रौ ४, १३, ३; ७, ७, ३; काश्रौ २, २, १६; ३, ४, १७××; आपश्रौ; प्राश्नीतः आपश्रौ ३, ९, ९; वौश्रौ १, २० : १७; ४, १० : १८; माश्रौ; प्राश्नन्ति शाश्रौ ३, १६, २५; काश्रौ ३, ४, १९××; आपश्रौ; शाण्ड ४, ५, १०†; †प्राश्नामि आश्रौ १, ७, २२<sup>m</sup>; १३, १××; शाश्रौ १, १०, २२<sup>m</sup>××; आपश्रौ; †प्राश्नातु

a) वैप १ द. । b) पाभे. वैप १, २२११ e द. । c) पाभे. वैप १, २२३८ i द. । d) पाभे. वैप १, २२३९ c द. । e) वैप २, ३खं. द. । f) सप्र. आपश्रौ २२, १३, ११ ब्राह्मणस्य इति पाभे. । g) व्यप. । व्यु. ? । h) वैप १, २२४० c द. । i) वैप १, २२४० d द. । j) विप. (प्रकरणात्) अश्वरथ- । अर्थः ? । आदर्शखचित- [जै १३४] वा धात्वनुविद्ध- [आपश्रौ.] वेति ? c. । k) कस. > वस. । l) सपा. प्राश्नन्ति <> प्राश्य इति पाभे. । m) पाभे. वैप २, ३खं. अशनामि माश १, ८, १, १४; १५ टि. द. ।

आपश्रौ ६, ३०, १०<sup>३</sup>; वौश्रौ ३,  
१२ : ९<sup>३</sup>; भाश्रौ ६, १७, १७<sup>३</sup>;  
माश्रौ १, ६, ४, २६<sup>३</sup>; वाश्रौ १,  
५, ५, ८<sup>३</sup>; वैश्रौ ८, २ : ९<sup>३</sup>;  
हिश्रौ ६, ८, १<sup>३</sup>; आपमं २, १०,  
७<sup>३</sup>; पाश्रु ३, १, ४<sup>३</sup>××; वौश्रु<sup>३</sup>  
१, २, ४८; ४९; गोश्रु ३, ८, २०<sup>३</sup>;  
जैश्रु १, २४ : ९<sup>३</sup>; द्राश्रु ३, ३,  
८<sup>३</sup>; या १२, ९९; ऋश्रान्तु  
द्राश्रौ १३, ३, १७; लाश्रौ ५, ४,  
२; काश्रु ६३, १३; प्राश्रनाहि  
अप्राय २, ४<sup>३</sup>; प्राश्रनित वौश्रौ  
६, १२ : २; वाधूश्रौ ४, ६७ : ३;  
प्राश्रनीम वाधूश्रौ ४, ६७ : २;  
प्राश्रनन् वाधूश्रौ ४, ६७ : ४;  
प्राश्रनीयात् आश्रौ १, ७, ८; १०,  
८××; शाश्रौ; प्राश्रनीयाताम्  
वौश्रौ २०, २ : ११; माश्रौ १,  
४, १, १०; वौश्रु ४, १२, ६;  
प्राश्रनीयुः आश्रौ ५, ७, १०××;  
वौश्रौ।  
ऋश्राशिष्यन्ते द्राश्रौ १३, ३, १७;  
लाश्रौ ५, ४, २; प्राश्रत् जैश्रु २,  
१ : ३८; प्राश्रीः शौच १,  
१०५<sup>३</sup>; प्रा(प्र-अ)शिपम्  
कौश्रु २२, २-४<sup>३</sup>।  
प्राश्रयेत् मीश्रु १०, ६, ३३।  
प्राश्रयति पाश्रु १, ११, ५; १६,  
४<sup>३</sup>; वैश्रु ६४ : ३; आश्रिण २,  
१, १ : १०; ४ : २<sup>३</sup>××; वौश्रु  
२, १, ७<sup>३</sup>; ३, ५; भाश्रु १, २४ :  
१०<sup>३</sup>; २७ : २०; २२; वैश्रु; हिश्रु  
२, ३, ९<sup>३</sup>; प्राश्रयन्ति आपश्रु  
१९, १; हिश्रु १, ४, १०; १२;

ऋश्राश्रयामि आपश्रौ १, १०, १०;  
हिश्रौ २, ७, ५९; आपमं; प्राश-  
येत् आश्रौ २, ७, १३; आपश्रौ  
१, १०, १६; वौश्रौ; प्राश्रयेयुः  
द्राश्रौ १२, १, १९; लाश्रौ ४, ९,  
१३; जैश्रु २, २ : २९।  
प्रा(प्र-अ)श्रु->√प्राश्रापि<sup>३</sup>,  
प्राश्रापयति माश्रु १, १७, ४<sup>३</sup>; २,  
३, ६।  
प्रा(प्र-अ)श्रान- -न्म् शाश्रौ ४, ७,  
१९; काश्रौ १२, ३, २०; आपश्रौ;  
-नात् भाश्रौ ६, १७, १५; -ने  
आपश्रौ ६, ३१, ७; वौश्रौ।  
प्राश्रान-कर्मन्- -र्म् जैश्रु १, १० :  
१।  
प्राश्रान-कल्प- -ल्पः भाश्रु १,  
२७ : २०।  
प्राश्रान-मन्त्र- -न्त्रः वौश्रौ २४,  
३३ : ९; वौश्रु ३, ७, २६।  
प्राश्राना(न-अ)न्त- -न्ते पाश्रु १,  
५, १२; १९, ५××।  
प्राश्राना(न-अर्थ)>र्था- -र्थाः  
भाश्रु २, १ : १०।  
प्राश्रानार्थीय- -यन् शाश्रु  
३, ८, २।  
प्राश्रानो(न-उ)स्तेचन-परिषेचन-  
-नानि आपश्रौ ९, ११, १२; वैश्रौ  
२०, २१ : ७।  
प्रा(प्र-आ)श्रायित्वा आपश्रु १५, ४<sup>३</sup>;  
गोश्रु ३, ८, ७; वैश्रु।  
प्रा(प्र-अ)श्रित, ता- -त्तः वाधूश्रौ २,  
१५ : २; कौश्रु १, १, ३<sup>३</sup>; शाश्रु  
१, ५, १<sup>३</sup>; १०, ८<sup>३</sup>; पाश्रु १, ४,  
१<sup>३</sup>; काश्रु १३, २<sup>३</sup>; जैश्रु १, १ :

४<sup>३</sup>; -न्तम् वैताश्रौ ३, १२; जैश्रु  
१, १२ : १८; कौश्रु ६५, १४;  
७४, २०; -तानाम् काश्रु १३, ६;  
-ताभिः वाधु ३, ३३; वौश्रु १, ५,  
१८; -तायाम् आपश्रौ ३, २, ११;  
१३, ११, ५; वैश्रौ; -ते आपश्रौ  
३, २, १०; वौश्रौ।  
प्रा(प्र-अ)श्रितवत्- -वत्सु हिश्रौ  
३, २, ४९; -वद्भ्यः आपश्रौ ५,  
७, ३××; भाश्रौ।  
प्रा(प्र-अ)श्रितुम् वाधूश्रौ ४, १०८ :  
४; ५।  
प्रा(प्र-अ)श्रितृ- पावान ५, १, १०५;  
-तृणाम् आपश्रौ ९, १५, १९;  
भाश्रौ ९, १८, ७; हिश्रौ १५, ४,  
३९।  
ऋश्राश्रित- पावा ५, १, १०५<sup>३</sup>।  
ऋश्रा(प्र-अ)श्रि L, शी<sup>३</sup> ऋ<sup>३</sup> -न्म्  
आश्रौ १, १३, १; शाश्रौ ४, ७,  
४; ७; २१, ६; काश्रौ २, २,  
१३; ३, ४, १××; आपश्रौ  
३, १, १; २××; वौश्रौ १, १७ :  
२६; १८ : १७<sup>३</sup>××; भाश्रौ २,  
१९, ९; ३, २, ७××; नाश्रौ १,  
३, ३, २; ४, २, ८××; वाधूश्रौ ४,  
३ : ३; ४६ : ३; वाश्रौ १, १, ३,  
८<sup>३</sup>; ५, १६××; वैश्रौ ६, १० :  
११; १२ : १४××; हिश्रौ २,  
३, १; ५××; द्राश्रौ १२, ३, ९;  
१३, २, २; लाश्रौ ४, ११, १०;  
५, २, ६; वैताश्रौ ३, ७; १२; वैश्रु;  
या १२, १४<sup>३</sup>; -त्रत्य वौश्रौ  
२०, १३ : ३२; माश्रौ ५, २, १०,  
११; -त्राय वौश्रौ १३, २३ :

a) पाभि. वैप २, ३खं. प्राश्रनात् तैत्रा २, ४, ८, ७ टि. द्र. । b) सप्र. प्राश्रयति <> प्राश्रापयति <>  
प्राश्रयित्वा <> काश्रु ३४, ६ प्रपाययति इति पाभे. । c) उप. भावे प्र. । d) कापुगु-आगमः उरसं. [पावा ३, १, २५  
(तु. षSR. ?); वैतु. Bष. Mष. <प्रा[प्र/अ]श्रु [व्याप्तौ] इति ?] । e) वस. । f) उप. अधिकरणे कर्मणि च प्र. ।  
g) = पाक-यज्ञ- । h) तु. पाका. पासि. । i) वौश्रौ २०, २४ : २६ पाठः ? । j) = (ब्रह्मणे दीयमान-) हविस्- । शेषं वैप १ द्र. ।

१०; -त्रे आपश्चौ १९, २१, ५<sup>०</sup>;  
६; वौश्रौ।  
प्राशित्र-पात्र- -त्रम् वैश्रौ ११,  
८: ७.  
प्राशित्र-भाग- -गात् द्राश्रौ  
१३, २, ३; लाश्रौ ५, २ ७.  
प्राशित्र-वत् वैताश्रौ १९, १५.  
प्राशित्र-हरण<sup>०</sup> -णम् आश्रौ १,  
१३, १; शांश्रौ ४, १४, २३;  
काश्रौ; -णस्य वौश्रौ २०, १०:  
३; -णात् माश्रौ १, ७, ६, ३;  
-णे काश्रौ २५, ७, २७××; वौश्रौ।  
प्राशित्रा(त्र-आ)कृति<sup>०</sup> - -ति  
वैश्रौ १४, १५: १.  
प्राशित्रा(त्र-अ)वदान- -नम्  
काश्रौ १, १, १७; वैश्रौ ९, ९: ६.  
प्रा(प्र-अ)शिष्यत्- -प्यन् वौश्रौ ३,  
२९: १४; वाश्रौ १, १, ५, ४;  
कौश्र ३, ५, १; शांश्र ३, ८, १.  
प्रा(प्र-अ)शिष्यमाण- -णे आश्रौ १,  
४, १.  
प्रा(प्र-अ)श्नत्- -श्नत्सु द्राश्रौ १२,  
४, ८; लाश्रौ ४, १२, ८; -श्नन्तः  
वौश्रौ १३, २३: ११; -श्नन्तम्  
आपश्रौ १९, २४, ८; २२, २६,  
७; हिश्रौ।  
प्रा(प्र-अ)श्य आश्रौ २, ९, १०××;  
शांश्रौ; कौश्र ३, ७, १२<sup>०</sup>।  
प्रा(प्र-अ)श्य- -श्यः आपश्रौ १, ९,  
१३<sup>३</sup>; भाश्रौ १, ९, ६<sup>३</sup>; हिश्रौ ९,  
४, १३; -श्यम् काश्रौ ५, ९, ३१.  
प्रा(प्र-अ)श्यमा(न>)ना- -नाम्  
वौश्रौ ३, १८: २५; वैश्रौ ७,  
१: १३.

प्राश्- √पृच्छ द.  
√प्राश्<> प्राश<sup>०</sup> - -शम् अप्रा ३,  
४, १<sup>१</sup>.  
प्राशन- प्रश्. प्रा(प्र√अ)श् (भोजने)  
द.  
प्राशातिक<sup>१</sup>- -कात् आपश्रौ ४, ३, ८;  
भाश्रौ ४, ४, ६; हिश्रौ ६, १, ३७.  
प्राशास्त्र- प्र√शास् द.  
प्रा(प्र-अ)शित- प्रश्. प्रा(प्र√अ)-  
श्(भोजने) द.  
प्रा(प्र-अ)शु<sup>०</sup>- -शु आपश्रौ ७, १३, ३;  
-शु: निष २, १५<sup>१</sup>; या १, ७.  
प्राशू<sup>०</sup>- -शू: वौश्रौ ९, २: ७<sup>१</sup>.  
†प्राशृङ्ग<sup>०</sup>- -ङ्गः आपश्रौ १९, १६,  
१६; -ङ्गाः आपश्रौ २०, १४, १२;  
१५, ३; हिश्रौ १४, ३, १८<sup>२</sup>.  
प्रा(प्र-अ)श्य प्रश्. प्रा(प्र√अ)श्  
(भोजने) द.  
प्राश्लिष्ट- प्र√श्लिष् द.  
प्रा-पाह- प्र√सह द.  
प्रा(प्र-अ)ष्ट- प्रश्. प्रा(प्र√अ)श्  
(व्याप्तौ) द.  
†प्रा(प्र√अ)स(भुवि), प्रा(प्र-अ)सि  
वौश्रौ २८, २: ४७; प्र...अस्तु  
आश्रौ ३, १२, ९; ४, ११, ६;  
वैश्रौ २, १३: ६; आपसं २, १५,  
१; या २, १३; प्र(अस्तु) आपश्रौ  
६, १८, १; १३, ४, ६; वैश्रौ।  
प्रा(प्र√अ)स(क्षिपणे), प्रास्यति शांश्रौ  
१७, १०, १३; काश्रौ ५, २, ५; ९,  
२९××; आपश्रौ; प्रास्यत्: काश्रौ  
९, १०, ११; प्रास्यन्ति शांश्रौ ३,  
१६, २६; काश्रौ १२, ३, ६; हिश्रौ  
१६, २, २१; प्र(अस्यथ) ऋश्र २,

१, ३९<sup>१</sup>; प्रास्यत् वृदे ५, ९९;  
प्रास्येत् वौश्रौ २१, २१: २३;  
२६, २१: ४; ७; वाघुश्रौ;  
प्रास्येयुः लाश्रौ १०, १७, १२.  
प्रा(प्र-अ)सन- -नम् काश्रौ २, ६,  
४४; १२, १, २२; २३, ४, २४;  
आपश्रौ १३, १८, ७; वैश्रौ १६,  
२२: ११; -ने वौश्रौ २१, २१:  
२२; २४: १६; वैताश्रौ २८,  
२७<sup>१</sup>।  
प्रासन-वत् मीसू ४, २, १६.  
प्रा(प्र-अ)स्त- -स्तः वौश्रौ ८, ९: ५;  
१४, ६: २३; -स्तम्-स्तम्  
आपश्रौ ३, १०, ४; -स्तात्  
काश्रौ १६, ६, २९; -स्तानि  
द्राश्रौ ६, ३, २३; लाश्रौ २, ११,  
१६; वृदे ५, १७.  
प्रास्त-कवच<sup>१</sup>- -चाः वौश्रौ १५,  
७: २०.  
प्रा(प्र-अ)स्य काश्रौ ३, ६, १४; ७,  
१३; ४, १, ७××; आपश्रौ।  
प्रा(प्र-अ)स्यत्- -स्यन् काश्रौ ५, २, ४.  
प्रासङ्ग- प्रश्. प्र√सञ्, ङ्ङ् द.  
प्रासर्पक-, -र्पिक- प्र√सृप् द.  
प्रा-सह-, -सह- प्र√सह द.  
प्रा-साद्- प्रश्. प्र√सद् द.  
प्रा-सूद्- प्र√सूद् द.  
प्रासेन- प्र-सेन- द.  
प्रास्तर-, -स्तारिक- प्र√स्तृ, स्तृ द.  
प्रास्ताविक- प्र√स्तु द.  
प्रास्थानिक- प्र√स्था द.  
प्रा(प्र-आ)√स्यन्द, प्रास्यन्देत् वाघुश्रौ  
४, ९०<sup>३</sup>: ५; ७.  
†प्रा (आ...असिष्यदन्त) ऋश्र-

a) ०त्रे, अष्टौ इति द्वे पदे ( तु. सप्र. हिश्रौ २२, ४, २ भाष्यम्, C. च; वैतु. Garbe प्राशित्रेष्टि- >  
-ष्टौ इति ) । b) = पात्र-विशेष- । उप. करणे प्र. । c) वस. पूष. = पात्र- । d) पाभे. पृ १७६७ । द. ।  
e) वैष १ द. । f) नाप. (धान्य-विशेष-) । व्यु. ? । <प्र-शात- इति स्तदन्तः g) = क्षिप्र- । प्रास. (तु. दे.) ।  
h) पाठः ? प्रास्ताम् इति ? C. ( तु. सा [शौ ६, ६३, १] ) । C. [पक्षे] दिशि इति ? । i) वस. ।

२, ९, ६८; ३, २९; साञ्च १, ५६३.  
प्रास्रवण- प्र√तु द्र.

प्रा(प्र√आ)ह्, प्राह आश्रौ ६, ११, १६; १२, ९, १४; शांश्रौ ७, १०, २; १७, १७, १०; आपश्रौ ३, २०, ८<sup>१</sup>; १०, १, २; १४, ९, ७<sup>१</sup>; २२, ४, ५; वौश्रौ ३, २६ : ७<sup>१</sup>××; १४, ९: २५<sup>१</sup>; २८<sup>१</sup>; माश्रौ ३, १८, ८<sup>१</sup>; माश्रौ; वैश्रौ १७, ६ : ६<sup>१</sup>; हिश्रौ २, ८, ३८<sup>१</sup>; १०, ८, ४४<sup>१</sup>; या १, १६; ८, २१; प्राहुः शांश्रौ ४, ७, १७<sup>१</sup>; वौश्रौ १, ३ : १८××; वाश्रौ; द्राश्रौ १२, ४, १<sup>१</sup>; लाश्रौ ४, १२, १<sup>१</sup>; या १, ३.

प्राहृतायन- २प्रहृत- द्र.

प्रा(प्र-अ)हृ<sup>१</sup>- पाग २, १, १७; -हृ जैगृ १, १४ : ११.

प्राहृ-तन- पा ४, ३, २३.

प्राहृदि- प्र√हाद् द्र.

प्रिय- √प्री द्र.

प्रियक<sup>१</sup>-(> प्रैयक- पा.) पाग ४, १, १०४.

√प्रियकास्य प्रमृ. √प्री द्र.

प्रियङ्गु<sup>१</sup>- पाउमो २, १, ४८; -ङ्गवः वौश्रौ २४, ५ : १६; २८, १३ : १; अप १, ४३, ९; अशां १२, २; शुप्रा ५, ३७<sup>१</sup>; -ङ्गुः अप ५, २, १; -ङ्गुभिः विध ८०, १; -ङ्गुम् अप ७, १, ६.

प्रैयङ्गव<sup>१</sup>- वम् वौश्रौ १३, २० : ७; अप १, २८, २; माशि २८; -वेण आमिगृ २, १, १ : १३;

हिगृ २, २, ६.

?प्रियङ्गव- वे<sup>१</sup> माश्रौ ५, १, ६, ३९.

प्रियङ्गु-तण्डुल- लान् आपश्रौ २०, १०, ५; हिश्रौ १४, ३, ३; कौसृ ३२, २.

प्रियङ्गुतण्डुल-चर्मन्<sup>१</sup>- -र्माणि वौश्रौ १५, १६ : ५.

प्रियङ्गु-दूर्वा-गौरसरप- -पाणाम् वागृ १४, ६.

प्रियङ्गु-यव-श्यामाक-नीवारा(र-आ) दि- -दिभिः वैध १, ७, ५.

प्रियङ्गव(ङ्गु-अ)णु- -णवः आपश्रौ १६, १९, १३.

प्रियन्तम- प्रमृ. √प्री द्र.

√प्री<sup>१</sup> पाधा. दिवा. आत्म. प्रीतौ; क्रया. उभ. तर्पणे कान्तौ च; चुरा. उभ. तर्पणे, ऋषिप्रोहि आश्रौ १, ६, ३; शांश्रौ १, ९, १; ५, १९, २१; आपश्रौ; पिप्रीत हिश्रौ १, ७, ४०<sup>१</sup> प्रीयते शंघ ४५७<sup>१</sup>; प्रीयते शंघ ४५७<sup>१</sup>; प्रीयन्ते जैगृ २, १ : ३३<sup>१</sup>; शंघ ४५७<sup>१</sup>; विध ८०, १; प्रीयताम् आमिगृ २, ३, ४ : १<sup>१</sup>; वाध २८, १९; ऋषीयन्ताम् शांश्रौ ४, ४, १२<sup>१</sup>; आमिगृ<sup>१</sup> २, ३, २: ११; ४: ६<sup>१</sup>; वौगृ ३, १, १२<sup>१</sup>; १२, ३<sup>१</sup>; मागृ २, १४, २९; जैगृ १, ६ : १०<sup>१</sup>; विध ७३, २७. ऋषीयताम् वैगृ १, ६ : ५; ६<sup>१</sup>; प्रीयेताम् वौगृ २, ५, ५४<sup>१</sup>; ऋषीयन्ताम्<sup>१</sup> वौश्रौ १, ४ : ९; वौगृ १, १, २४; मागृ ३, १६: ५; वैगृ ६, २ : १४.

प्रीणाति शांश्रौ १५, ५, ६; १६.

१, १२××; या ५, १७; प्रीणन्ति हिध २, ५, २३; गौघ १५, १४१; या १, २०; प्रीणामि शांश्रौ २, ९, १२<sup>१</sup>××; आपश्रौ; माश्रौ १, ६, १, ४८<sup>१</sup>; ऋषीणातु आपश्रौ २, २०, ६; वौश्रौ; ऋषीणीताम् वौश्रौ ३, १८: ११; माश्रौ १, ४, १, २७; वाश्रौ १, १, ३, १; ऋषीणन्तु वौश्रौ ३, १८ : ९; माश्रौ १, ४, १, २७; वाश्रौ १, १, ३, १; वैगृ १, २ : १९; ऋषीणीहि आपश्रौ ६, ११, ५; १७, २२, २; वौश्रौ; ऋषीणानि वौश्रौ २४, २९ : २०; माश्रौ २, १९, १; हिश्रौ २, ५, ४७; अप्रीणात् शांश्रौ १४, ७, १; प्रीणीत या ५, २६<sup>१</sup>.

प्रीयताम् आमिगृ २, ४, ६ : ३७. प्रीणयति विध २१, ५; प्रीणयन्तु मागृ २, १४, २९<sup>१</sup>; ऋषीण(य>) या आगृ ४, ७, ११; आमिगृ ३, ३, १ : २९; ३०; वौषि २, ९, ६; ११, ३; गौषि २, ३, १८<sup>१</sup>; प्रीणयेत् अप ७०, ३, ४.

?अपिप्रेट्<sup>१</sup> हिश्रौ ६, ३, ११<sup>१</sup>; ऋषिप्रेः आश्रौ १, ८, ७; शांश्रौ १, १३, ३; आपश्रौ; ऋषिप्रेम्<sup>१</sup> आपश्रौ ४, १२, ३<sup>१</sup>; माश्रौ ४, १७, ६<sup>१</sup>; वैश्रौ ७, ५ : ९.

प्र<sup>१</sup>-> प्रेमन्- पा ५, १, १२३; ६, ४, १५७.

प्रेयस्- पा ६, ४, १५७; -यांसः वौश्रौ १८, १३ : १५;

a) पाभे. वैप १, २२४२ | द्र. । b) = प्रातर्- । c) = ऋषि-विशेष- । d) वैप १ द्र. । e) पाठः ? प्रैयङ्गव- > -वे इति श्लोघः । f) उप. = [चर्म-मय-] मान-पात्र- । g) या १, २०; ८, ४ पावा ७, ३, ३७ परामृष्टः द्र. । h) पाभे. पृ १६२५ II द्र. । i) परतरं पाभे. । j) सपा. प्रीयन्ताम् <> प्रियन्ताम् इति पाभे. । k) तु. मैस्र. [१९२०] । प्रिय<sup>१</sup> इति मैस्र. [१९०४] । l) पाभे. पृ १११५ C द्र. । m) वैतु. C. 'याहि इत्येकं क्तिप. इति ? । n) पाभे. वैप १, १४६४ C द्र. । o) 'द् यं इत्येवं कृतः लैवि. द्र. । p) = ऋषिप्रयम् (तु. वैप १) ।

प्रेयसी- -सि वीश्रौ १६, २६: १४<sup>१</sup>; -<sup>१</sup>सी आपश्रौ ५, २६, ५; हिश्रौ ३, ६, ५; अप्रा ३, ४, ७.  
 प्रेष्ठ- पा ६, ४, १५७; -ष्ठः वीश्रौ ९, ७: ४<sup>१</sup>; -<sup>१</sup>ष्ठम् आश्रौ ४, १३, ७; ७, ८, १; शाश्रौ; -ष्टाः आगृ २, ६, १४.  
 प्रिय, या<sup>१</sup>- पा ३, १, १३५; पाग ५, १, १२२; ६, ३, ३४; -यः आश्रौ २, ३, १४; ५, १३, १४<sup>१</sup>; शाश्रौ; माश्रौ ३, ४, १<sup>१</sup><sup>१</sup>; आमिगृ ३, ६, ३: १९<sup>१</sup><sup>१</sup>; वीपि १, ११: १६<sup>१</sup><sup>१</sup>; पा ४, ४, ९५; -यम् <sup>१</sup>आश्रौ १, ९, ५; २, ८, ३××; शाश्रौ; आपश्रौ २, ११, ६<sup>१</sup><sup>१</sup>; वैश्रौ ५, ९: ४<sup>१</sup><sup>१</sup>; हिश्रौ १, ८, २९<sup>१</sup><sup>१</sup>; आपमं २, ४, २<sup>१</sup><sup>१</sup>; आपध २, ७, १४<sup>१</sup><sup>१</sup>; हिध २, २, ३३<sup>१</sup><sup>१</sup>; <sup>१</sup>या ९, १८: ११, ३९; १२, ९; -यया वीश्रौ १४, २९: १४<sup>१</sup><sup>१</sup>; -यस्य आपश्रौ ४, १६, ४; पावा २, २, ३५; -या <sup>१</sup>आश्रौ १, ३, १४××; शाश्रौ; या ३, १७; -या: <sup>१</sup>आपश्रौ ५, १०, २××; वीश्रौ; या ३, १७; -<sup>१</sup>याणाम् काश्रौ २०, ६, १३; वीश्रौ १५, २९: २५; कौसु ६२, १९; -<sup>१</sup>याणि वाधूश्रौ ३, १२: ४; ४, ९४<sup>१</sup><sup>१</sup>: ८; हिश्रौ; या ४, १६; -यात् आपध १, ८, १४; हिध १, २, १०२; -यान् आश्रौ ५, १७, ३<sup>१</sup><sup>१</sup>; -<sup>१</sup>याम् शाश्रौ १८, २१, ११; काश्रौ १३, २, २४;

वीश्रौ; -याय आश्रौ ७, ७, ७; आपश्रौ; -याया: वीश्रौ २८, २: ३०<sup>१</sup>; -यायै आपश्रौ २२, २, १६; वीश्रौ २८, २: १४; हिश्रौ १७, १, ३२; -<sup>१</sup>यासु आश्रौ २, १२, ५; ७, १०, ५; वीश्रौ २८, २: २९; हिश्रौ ६, ३, २; -<sup>१</sup>ये आपश्रौ २, १०, ३<sup>१</sup>; ९, १, १७<sup>१</sup>; वीश्रौ; -<sup>१</sup>ये आमिगृ ३, ५, ६: ६; वीपि १, ४: २३; -<sup>१</sup>येण शाश्रौ २, ११, ५<sup>१</sup>; काश्रौ २, ८, १९; ५, ४, २७; आपश्रौ; कौगृ ३, ६, ९<sup>१</sup>; शागृ ३, ११, १४<sup>१</sup>; पागृ ३, ९, ६<sup>१</sup>; कागृ ५९, ५<sup>१</sup>; विध ८६, १६<sup>१</sup>; -<sup>१</sup>येभ्यः काश्रौ १०, ४, ११; आपश्रौ १३, १०, १<sup>१</sup>; वीश्रौ; -यै: विध ९६, ३७.  
 प्रियं-चद, दा- पा ३, २, ३८; -दा कप्र २, १०, ४; -दा: अप ६८, १, २३.  
 ✓प्रियकाम्य > प्रियकाम्या-  
 -म्यया वृदे ६, १४९.  
 प्रिय-कार- पा ३, २, ४४.  
 प्रियं-कर- पा ३, २, ४४; -रः अप २१, ७, ५.  
 प्रिय-तम, मा- <sup>१</sup>मः माश्रौ १, ७, ४, ११; आमिगृ २, ६, ६: २४; -<sup>१</sup>मम् आश्रौ ४, १५, २; १०; शाश्रौ; -मस्य काठश्रौ १९; -मा वीश्रौ १३, ४: ८; दाश्रौ ७, २, ८; लाश्रौ; -<sup>१</sup>माम् आमिगृ ३, ८, ३: ३; वीपि १, १५: ७५; -माय काश्रौ १५,

६, १०; माश्रौ २, ५, ४, ३३; अप १३, ३, १३; -<sup>१</sup>मे आपश्रौ १६, ७, ४; वैश्रौ १८, ५: ३; हिश्रौ ११, २, २.  
 प्रिय-ता- -ताम् विध ५१, ७३.  
 प्रिय-त्व- -त्वम् वृदे ४, ७०.  
 प्रिय-दर्शन<sup>१</sup>- -नम् अप ३, ३, ८<sup>१</sup>.  
<sup>१</sup>प्रियघा<sup>१</sup> आपश्रौ ७, १५, ७; वीश्रौ ४, ६: ३०; भाश्रौ ७, १२, ११; हिश्रौ ४, ३, ४७.  
<sup>१</sup>प्रिय-धामन्<sup>१</sup>- -मभ्यः काश्रौ १०, ४, ११; आपश्रौ १३, १०, १<sup>१</sup>; वीश्रौ ८, १०: ६; ८; माश्रौ; -मनः आश्रौ ५, १७, ३.  
 प्रिय-प्रिय- पा ८, १, १३.  
 प्रिय-मेध<sup>१</sup>- -धः ऋअ २, ८, २; ६८××; शुअ; या ३, १७<sup>१</sup><sup>१</sup>; -<sup>१</sup>धा: आपश्रौ ६, २२, १; या ४, ३.  
 प्रियमेध- -धः ऋअ २, १०, ७५; -धस्य चाअ<sup>१</sup> ६: १; २; -धा: भाशि २८<sup>१</sup><sup>१</sup>.  
 प्रियमेध-वत् या ३, १७<sup>१</sup><sup>१</sup>.  
 प्रिय-रूप<sup>१</sup><sup>१</sup>- (> प्रैयरूपक-  
 पा.) पाग ५, १, १३३.  
<sup>१</sup>प्रिय-व(त >)ती- -ती वीश्रौ १३, २०: ८; हिश्रौ ६, ३, २.  
 प्रिय-वद्य<sup>१</sup>- -द्येन आपश्रौ १४, १२, ९<sup>१</sup><sup>१</sup>.  
 प्रिय-वादिन्- -दिने हिपि १८: २३.  
 प्रियवादिनी- -नीषु विध ९९, २१.  
 प्रिय-व्रत<sup>१</sup>- -तः शुअ ४, १६१;

a) वैप १ द्र. । b) पाभे. वैप १, २२४४ e द्र. । c) पाभे. वैप १, २२४४ j द्र. । d) पाभे. वैप १, १४७४ g द्र. । e) सपा. हिध २, २, ३३ कामः इति पाभे. । f) सपा. आपध २, ७, १४ मनः इति पाभे. । g) पाभे. वैप १, २२४६ h द्र. । h) वस. । i) वैप १, २२४७ k द्र. । j) प्यमेधसः इति पाठः? यनि. शोधः । k) तु. पागम. । l) उप. < ✓वद् । m) सपा. प्रियवद्येन <> प्रियोद्येन इति पाभे. ।

-**प्रीतेभ्यः** काश्रौ १०, ४, ११;  
आपश्रौ १३, १०, १३; वौश्रौ.

**प्रिय-स(खि>)** खी- खीम्  
माशि १६, ४.

**प्रिय-हित-** -तम् विध ३१, ५;  
-तयोः गौघ २, ३७.

**प्रियहित-कर्मन्-** -माणि  
वैघ १, २, ६.

**प्रियहिता(त-आ)चरण-** -णम्  
विध २८, ७.

**प्रिया**√कृ पा ५, ४, ६३.

**प्रिया(य-आ)दि-** -दिषु पावा ४,  
१, १.

**प्रिया(य-अ)प्रिय-** -ये हिघ २,  
५, १२२.

**प्रियाप्रिय-विपर्यय-** -यान्  
शंघ ३७०.

**प्रियो(य-उ)घ<sup>२</sup>** -घेन हिश्रौ  
१०, ६, ४<sup>b</sup>.

**प्रियन्ताम्-अन्त<sup>८</sup>** -न्ताः वैघ १,  
७ : ३१<sup>d</sup>.

**प्रीणत्-** -णन्तः वौश्रौ १६, ११ : ३.

**प्रीणयित्वा** विध ९०, १०; २४; २६;  
**प्रीणाति->** ण्ति-निगम- मौ या  
५, २४.

**प्रीत, ता-** -तः शांश्रौ १४, ७, ११;  
आपश्रौ १६, ३५, ५१; वौश्रौ;

अप २०, ५, ४; ३१, ४, १; -**प्रीता**  
वौश्रौ ३, १८ : १०; माश्रौ १,  
४, १, २७; वाश्रौ १, १, ३, १;

ऋश्र २, ८, १; -**प्रीताः** आपश्रौ  
५, १८, १; वौश्रौ ३, १८ : ९;

माश्रौ; विध ४८, १०<sup>off</sup>;  
-**प्रीतौ** वौश्रौ ३, १८ : ११; माश्रौ  
१, ४, १, २७; वाश्रौ.

**प्रीत-मनस्<sup>६</sup>** -न्ताः अप १, ४०,  
११.

**प्रीत-मानस्<sup>६</sup>** -सः अप ७०, ३,  
४.

**प्रीता(त-आ)मन्<sup>६</sup>** -त्मा अप  
४१, ४, ४; वृदे ४, ५५.

**प्रीति-** -तये शंघ ४५७; -**तिः** आगृ  
१, १, ४<sup>३</sup>; आपघ १, ४, १०××;

हिघ; या १०, १०; २८; ४६;  
-**तिम्** वौश्रौ १८, २९ : १५;

कौगृ; -**तौ** अप ४८, ३०; या  
११, ९; पा ६, २, १६; -**त्या** वृदे  
४, १; ७६; -**त्यै** शांश्रौ १६, ३,  
१७××.

**प्रीति-कर्मन्<sup>६</sup>** -र्मा या ६, २२;  
१४, २४.

**प्रीति-दाय<sup>६</sup>** -यः विध ५८,  
९<sup>१</sup>.

**प्रीति-प्रधान-त्व-** -त्वात् मौस्  
९, १, १०.

**प्रीति-मत्-** -मान् अप ३१,  
१०, १.

**प्रीति-वर्धन-** -नः शंघ १८६.

**प्रीत्य(ति-अ)र्थ-त्व-** -त्वात्  
मौस् १०, २, १३.

**प्रीत्यु(ति-उ)पलङ्घि-तस्(ः)**  
आपघ १, १२, ११; हिघ १, ४,  
१२.

**प्रीयमाण-** -णः पा १, ४, ३३.

**प्री(ण>)णी<sup>१</sup>** -ण्यः कौस् ३६,  
१०; अश्र ६, ८९; अप्रा ३, ४,  
१.

**प्रीत्-** -त्ता शांश्रौ ८, १७, १; वौश्रौ  
८, १६ : ११; २६, ३१ : १५.

√**प्री<sup>६</sup>** पाघा. भ्वा. आत्म. गतौ, प्रवर्ते

निघ २, १४<sup>१</sup>.

**प्रवक्-** पा, पावा ३, १, १४९.

√**प्रुह्** पाघा. भ्वा. पर. मर्दन.

√**प्रुथ्** (शब्दे)<sup>१</sup>, प्रोथतः वौश्रौ १५,  
३ : ६; **प्रीथयत्** काश्रौ १७,  
१२, २४; आपश्रौ १७, ३, ९;

वौश्रौ १०, ४६ : ४८; माश्रौ ६,  
२, ३, १७; वाश्रौ २, २, २, १७;

वैश्रौ १९, ४ : १८; हिश्रौ १२,  
१, ४४; शुश्र २, २४२.

**प्रोथत्-** -यते भाशि ५६<sup>१</sup>; -**यद्**  
माश्रौ २, ५, ३, ८.

**प्रोथयित्वा** आपघ २, १२, २; हिघ  
२, ४, ३७.

**प्रोथ्य** आश्रौ ६, १३, १०.

√**प्रुप्** पाघा. भ्वा. पर. दाहे; क्वा.  
पर. स्तेहनसेवनप्रारोपु.

√**प्रुप्** (प्रवर्षणे), **प्रुप>** पा ऋपा ८,  
१५<sup>१</sup>.

**प्रुपत्-** -यन्तः शांश्रौ १२, २३, ११<sup>१</sup>.  
**प्रुपित-** -तम् भागृ २, ३०, १६.

**प्रु(ख>)प्वा<sup>१</sup>** -पाट १, १५१;  
-**प्वाः** काश्रौ १५, ४, ३५;

-**प्वानाम्** आपश्रौ १८, १३, १३;  
वाश्रौ ३, ३, २, २१.

**प्रे** (प्र√इ), प्रैति वौश्रौ ९, २ : ८××;  
वाश्रौ; **प्री**...**पृति** शांश्रौ

६, ४, ११××; ऋश्र २, १,  
१४४; अश्र १८, ४; **प्री**

(**पृति**) ऋस् ३, १० : ३२; ऋश्र  
२, ९, ९६; साश्र १, ५३<sup>१</sup>;

**प्रयन्ति** वैश्रौ १६, ५ : ७; १५;  
४; लाश्रौ १०, ४, ४<sup>१</sup>; निस् ८,  
११ : २५××; **प्री** (यन्ति)

शांश्रौ ७, १५, १४; निस्

a) उप. √वृत् + भावे क्यप् (पा ३, १, १०६) । b) पाभे. पृ १७७१ III द. । c) यस. पूष. क्रिप. । d) षन्तः इति पाठः ? यानि. शोघः । e) पाभे. वैप १, १९८८ B द. । f) पीताः इति जीसं. । g) दत्त. । h) मलो. क्त. । i) ष्यम् इति जीसं. । j) वैप १ द. । k) पा १, ३, ८६; ७, ४, ८१ परानृष्टः द. । l) वैप १, २२४९ C द. ।

८, ५ : १५<sup>a</sup>; ऋअ २, ९, ३३××; वृदे ७, २३; साअ २, ११११; ऋँतु आश्रौ<sup>b</sup> ४, ७, ४; १०, ३; ७, ३, १; शांश्रौ<sup>b</sup> ५, १०, १४; १४, १०; १०, ४, ७; काश्रौ ९, ११, ३××; २६<sup>b</sup>, १, १३; ५, १७; आपश्रौ १५, १, ७<sup>b</sup>; वौश्रौ ९, २ : ८<sup>b</sup>; माश्रौ ११, १, १०<sup>b</sup>; माश्रौ ४, १, ९<sup>b</sup>; वैश्रौ १३, १ : १०<sup>b</sup>××; द्विश्रौ २४, १, ५<sup>b</sup>; माश्रु २, ११, १७<sup>b</sup>; प्र...प्तु आश्रौ ५, १, ८; शांश्रौ ११, १३, १६; वौश्रौ ९, २ : ८<sup>b</sup>; आपमं; ऋँ (एतु) आश्रौ ५, १०, २८××; शांश्रौ; ऋँताम् आश्रौ ४, ९, ४; ८, ९, ५; शांश्रौ ५, १३, ४; १०, ९, १६; प्र (इताम्) वृदे ४, ९२<sup>क</sup>; ऋँप्रयन्तु आश्रौ ९, ५, ५; शांश्रौ; वौश्रौ ९, २ : ७<sup>d</sup>; माश्रौ ५, १, ९, २३<sup>d</sup>; या १०, ३०<sup>e</sup>; प्र... यन्तु अप ७, १, ८<sup>क</sup>; ऋँ (यन्तु) काश्रौ ९, ११, ३<sup>क</sup>; कौस् ३१, ४; ऋअ; ऋँहि आश्रौ ४, ४, २; शांश्रौ ५, ६, २; आपश्रौ २, ६, ५××; १५, १०, ७<sup>f</sup>; २२, २६, १५<sup>g</sup>; या ९, ३३; प्र...हृहि अप १८<sup>h</sup>, १, ५<sup>क</sup>; प्रेहिप्रेहि<sup>h</sup> आश्रौ ६, १०, १९<sup>क</sup>; आश्रु ४, ४, ६<sup>क</sup>; ऋँताम् काश्रौ ८, ४, ३; आपश्रौ ११, ६, ११; वौश्रौ; ऋँत, > ता आपश्रौ १, १०, ६; १९, २०, १०<sup>d</sup>; वौश्रौ

३, ११:१९××; १३, २१ : ४<sup>d</sup>; भाश्रौ; माश्रौ ५, १, ८, ११<sup>d</sup>; द्विश्रौ २२, ३, २७<sup>d</sup>; वृदे ८, १४<sup>f</sup>; शुअ २, २८<sup>g</sup>; अअ ३, १९<sup>f</sup>; या ७, २; ऋप्रा ८, ३१<sup>f</sup>; शुप्रा ३, १२९<sup>f</sup>; प्रायन् या ५, २५<sup>क</sup>; प्रेयात् काश्रौ २५, ८, ८; वाधूश्रौ २, ९ : ५; द्राश्रौ; प्रेयाम् लाश्रौ ८, ८, १.  
 ऋँप्रेयुः अअ ५, ८; ११, १०.  
 प्र-यत्- -यतः या ३, २<sup>क</sup>; -यति कौस् ६, ३<sup>क</sup>; -यन्तः माश्रौ १, ७, ४, ३५; -यन्तम् वृदे ७, १९.  
 २प्रा(प्र-अ)य<sup>h</sup>- -यम् अप्रा २, ४, १६<sup>क</sup>; -ये आपश्रौ १२, २४, १६<sup>f</sup>.  
 प्राया(य-अ)नाशक-शास्त्रा(स्त्र-अ) सि-विपो( प-उ)द्वको ( क-उ)- द्वन्धन-प्रपतन- -नैः गौव १४, ११.  
 १प्रा(प्र-अ)यण<sup>k</sup>- -णम् वाधूश्रौ ३, १० : २; द्विश्रौ १६, १, ३३<sup>क</sup>; जैश्रौ १६ : ८; निस्.  
 प्रायण-काल- -ले गौपि १, १, १.  
 प्रायण-तस्(ः) निस् ४, ५:१; २.  
 प्रायणा(ण-अ)र्थ- -र्थम् निस् ७, २ : २०; -र्थे निस् ४, १२ : ३०; १३ : २.  
 प्रायणीय, या<sup>l</sup>- -यः आश्रौ ८, १३, ३१; १२, १, २××; शांश्रौ; -यम् आश्रौ १२, ६, ३; शांश्रौ; -यया आश्रौ ६, १४, २; शांश्रौ ८, १२, १; आपश्रौ; -यस्य आपश्रौ

१३, २३, ५; काठश्रौ १६०; वौश्रौ; -या आश्रौ ४, ३, १; शांश्रौ ५, ४, ७; वौश्रौ; -यात् आश्रौ ११, २, १०; काश्रौ; -याम् आश्रौ ६, १४, ५; वौश्रौ ६, १० : १४××; -यायाः आपश्रौ १०, २१, १××, वौश्रौ; -यायाम् आपश्रौ १०, ४, १०; ११<sup>क</sup>; २२, ९, २०; वौश्रौ; -ये शांश्रौ १०, १, १२; काश्रौ; -येन वौश्रौ ९, ५ : १०<sup>क</sup>××; माश्रौ.  
 प्रायणीय-चतुर्विंश- -शम्<sup>m</sup> वैताश्रौ ३१, ७; -शे आश्रौ ११, ७, २०.  
 प्रायणीयचतुर्विंश-वर्जम् वैताश्रौ ३१, ८.  
 प्रायणीय-वत् आपश्रौ २१, १३, १; वैश्रौ १६, २७ : ५.  
 प्रायणीय-स्थान- -ने आश्रौ ११, २, १२.  
 प्रायणीय-स्थाली- -ल्याम् वैश्रौ १६, २७ : ६.  
 प्रायणीय-हृविष्कृद्-अन्त<sup>n</sup>- -न्ते काश्रौ १७, २, ६.  
 प्रायणीया( या-आ )तिथ्यो- (थ्या-उ)पसद्- -सत्सु काश्रौ २२, ९, ३.  
 प्रायणीया( य-आ)दि- -दि वैश्रौ १२, १५ : ४; वैताश्रौ २८, २९.  
 प्रायणीया( य-अ )न्त- -न्ते काश्रौ १७, २, ७.  
 प्रायणीया-प्रभृति- -ति माश्रौ

a) पामे. वैप १, २१३५० द्र.। b) पामे. पृ ७८३ h द्र.। c) पामे. पृ ७८३ m द्र.। d) पामे. वैप १, २२५० b द्र.। e) पामे. वैप १, २२४९ r द्र.। f) वैप २, ३ खं. प्रेहि तैत्रा ४, ८, ४ टि. द्र.। g) वैप २, ३ खं. प्रेहि तैत्रा २, ७, ८, १ टि. द्र.। h) वैप १ द्र.। i) पामे. वैप १, २१९७ k द्र.। j) = काल-। उप. कर्तरि क्त इति भाष्यम्। k) भाप. (प्रारम्भ-), नाप. (मृत्यु-).। l) विप., नाप. (याग-, इष्टि-)। m) समा- हारे द्वस.। n) सस. > पस.।

६, १, ५, २५; वाश्रौ २, १, ४, ३१; -तिषु हिश्रौ ७, १, ७६.

प्रायणीया(य-आ) रम्भणीय-  
-यौ वौश्रौ १६, १४ : १०; ३६ : १०×४.

प्रायणीया-वत् आश्रौ ४, १, २५; काश्रौ १०, ९, ११; आपश्रौ १३, २३, १; वैताश्रौ २४, ८.

प्रायणीयो(य-उ)द्वयनीय-  
-ययोः आश्रौ १२, ७, ७; शांश्रौ १०, १, १८; आपश्रौ २१, १३, ७; २३, ७; वौश्रौ; -याम्याम् वौश्रौ २६, १५ : २; -ये या १३, ७; -यौ शांश्रौ १२, ६, १; आपश्रौ.

प्रायणीयोद्वयनीय-वर्जम्  
काश्रौ १०, १, १७.

ऋश्रौ (प्र-अ) यण<sup>३</sup> -गाय आपश्रौ २०, ६, २; ११, २; वौश्रौ १५, ६ : २४.

प्रे(प्र-इ) त, ता<sup>४</sup> -०त पागृ ३, १०, २८; वौपि २, ९, १३; -तः काठश्रौ १५; पागृ; ऋवौपि २, ९, ५<sup>०</sup>; ११, २<sup>०</sup>; -तम् माश्रौ ५, २, ६, १९<sup>१</sup>; निसू २, ९ : ३४; आगृ; -तस्य शांश्रौ ४, १४, ४; वाधूश्रौ ३, ३० : ६; आगृ; -ऋता वौपि २, ९, ५×४; -ताः आश्रौ २, ६, १६<sup>१</sup>; वाश्रौ १, २, ३, २९<sup>१</sup>; आमिगृ; -ऋंताः आमिगृ ३, ४, १ : १८; वौपि ३, २, ९; ३, १; वैगृ ५, ३ : ९; गौपि १, २, ११; -तात् विध २२, ८६; -तानाम् अप ३६, १, ७; गौध २८, २८; -ताम् वौपि २,

९, ६; ११, ३; -ताय पागृ ३, १०, २१; २७; ४९; वैगृ; -तायाः वैगृ ७, ४ : ६; शंघ २२५; -ऋतायै वौपि २, ९, ५; ११, २; -ते आश्रौ ९, ११, २३; क्षुसू, १ : १२; कौगृ ३, १४, १७<sup>०</sup>; ५, १, ७; शांश्रौ ४, २, ७; पागृ ३, १०, २; १४; हिपि २० : ६; गोगृ १, १, १२; ३, २, २३; द्रागृ ३, २, २९; कौसू ८०, ६; वाध ४, ३४; ३६; ७, ५; १३, ३९; १९, २९; वौध १, ५, ९३; विध ५, १८६; ६, २७; २८, ४४; गौध १६, ३२; २८, २९; -०ते वौपि २, ९, १३; -तेन अप ६८, २, ४५; -तेभ्यः आश्रौ २, ६, १८; काश्रौ ४, १, २३; -तेषु वाध ११, २४; आपध २, १५, २; विध २, ३, ३२; -तौ विध ७५, ५. प्रेत-क<sup>१</sup> -के आमिगृ ३, १०, २ : ११; वैगृ १, ६ : ८; ६, ४ : ३; ७, ५ : ७; वैध २, १४, १७. प्रेत-कर्मन् -र्म गौपि १, ३, ८; -र्मणि वैगृ ७, ४ : १७; -र्मणि गौध २०, २; १५. प्रेतकर्म-च्छेद -दः वाध २३, १४. प्रेत-कार्य -र्याणि शंघ २९४; ४४०. प्रेत-क्रिया -याम् वाध २३, १६. प्रेत-नृसि -सिः वौपि २, १०, ३; -सिम् वौपि २, १०, ५. प्रेत-न्व -न्वम् शंघ ३५६. प्रेत-धूम -मम् वैध ३, ३, १.

प्रेत-नामगोत्र -त्राम्याम् विध २१, ४.

प्रेत-निमित्त -त्तम् वैगृ ७, ७ : ४.

प्रेत-पक्ष<sup>६</sup> -क्षे शंघ २३९; २४०.

प्रेत-पति -तिः अप ६७, ३, ५.

प्रेत-पत्नी -त्नी आमिगृ ३, ६, २; ७; वौपि १, ९ : १६; हिपि ८ : १०; वाध १७, ५५; वौध २, ३, ६०.

प्रेत-पात्र -त्रम् शांश्रौ ४, ३, ६; आमिगृ ३, ११, ३ : ३; २२; वौपि २, ११, ८; १२, २; भाग्य.

प्रेतपात्रो(त्र-उ)दक -कम् वैगृ ७, ८ : ८.

प्रेत-पाद्य-पात्र -त्रे विध २१, १४.

प्रेत-पिण्ड -ण्डम् आमिगृ ३, ११, ३ : १५; २३; वौपि.

प्रेत-पिण्ड-क्रिया -वर्जम् शंघ ३५१.

प्रेत-पितृ<sup>४</sup> -ता मागृ २, १, १.

प्रेत-पूजा -जा वैगृ ४, ७ : १०.

?प्रेतवन्धक -कम् वैध ३, १५, ११<sup>१</sup>.

प्रेत-राज -जाय गौपि १, ६, ७<sup>१</sup>.

प्रेत-लोक-गत -तस्य विध २०, ३३.

प्रेत-विधान -नम् आमिगृ ३, ११, ४ : ४१; वौपि ३, ७, १.

प्रेत-श्राद्ध -द्धे कागृ ४५ : ६; -द्धेषु आमिगृ ३, ३, १ : ९; १४.

प्रेत-संस्कार -रम् वौपि ३, ८, २.

a) वैप १ द. । b) = [प्रयिण] नृत- । c) पाभे. पृ १५७३ I द. । d) पाभे. वैप १ इत्येनम् तै २, ४, ७, १ टि. द. । e) त्तः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. शांश्रौ ४, २, ७) । f) स्वार्थे कः प्र. । g) = पितृ-पक्ष- । h) वस. । i) पाठः? प्रेतम् सवन्धुकम् इति C. शोधः (तु. मनुः [१०, ५५]) ।



प्रेतसंस्कार-विधि- -धिम्  
 आम्रिण् ३,१०,४ : २.  
 प्रेत-संकलूस- -सम् आपध १,  
 १०,२८; हिध १,३,५५.  
 प्रेत-स्नान- -ने कप्र १,१०,७.  
 प्रेत-स्पर्शिन- -र्शिनः पाण् ३,  
 १०, ३५; -र्शिनम् कौण् ३,११,  
 ३७; शाण् ४, ११, ५; -र्शिन  
 शाण् ४,७,४७.  
 प्रेत-स्पृष्ट- -ष्टानि शंघ ३४५.  
 प्रेता(त-आ)कार- -रम् वौपि २,  
 १०,२.  
 प्रेता(त-अ)ग्नि- -ग्निषु माश्रौ ३,  
 ८,४.  
 प्रेता(त-आ)धान- -नम् गौपि  
 १,१,२५.  
 प्रेता(त-अ)नुगत-मा(र्ग>)  
 गर्गा- -र्गाः अप ५८<sup>२</sup>,४,११.  
 प्रेता(त-अ)नुगमन- -नम् विध  
 २२,६५; वृदे ७,१४.  
 प्रेता(त-अ)न्न- -न्ने आपध १,  
 ११,२५; हिध १,३,७५.  
 प्रेता(त-आ)प्यायन-काल- -लः  
 वैण् ५,१४ : ३.  
 प्रेता(त-अ)र्थ- -र्थम् वैण् ७,८ : १.  
 प्रेता(त-अ)लंकरण- -णे शंघ  
 ३६२.  
 प्रेता(त-अ)लंकार- -रान् आश्रौ  
 ६,१०,१.  
 प्रेता(त-आ)वाहन- -नात् वौपि  
 २,११,४.  
 प्रेतावाहना(न-अ)न्त<sup>b</sup>-

-न्तम् वौपि २,१०,२.  
 प्रेता(त-आ)शिस- -शिषः वृदे  
 ६,१५८.  
 प्रेताहार<sup>c</sup>- -रैः विध २२,८५.  
 प्रेता(त-आ)हुति- -तिम् वौपि  
 २,१०,२; -तीः आम्रिण् ३,९,  
 २ : ६१; वौपि २,५,५.  
 प्रेतो(त-उ)पस्पर्शन- -ने गौघ  
 १४,२२.  
 प्रे(प्र-इ)ति<sup>d</sup>- -तिः वैताश्रौ २०,  
 १३<sup>१०</sup>.  
 प्रेति-वत्- -वन्ति आपधौ  
 १४,१९,४; वौश्रौ १४,४ : २९;  
 वैश्रौ २१,५ : १०; हिश्रौ १५,  
 ५,१८.  
 प्रे(प्र-इ)व्य अप १०, १, २१; वाध.  
 प्रे(प्र-इ)यत्- -यन् वाधूश्रौ ४,२६<sup>५</sup> :  
 १६.  
 प्रे(प्र-ए)प्यत्- -प्यन् आश्रौ ४,  
 १५,८<sup>१</sup>.  
 प्रेहि> ०हि-कटा<sup>e</sup>-, ०हि-कर्ममा-  
 ०हि-द्वितीया-, ०हि-वाणिजा-  
 ०हि-स्वागता- पा, पाण २, १,  
 ७२.  
 प्रे(प्र√ई), प्र (ईमहे) आश्रौ ४,१३,  
 ७; शाश्रौ ६,४,७; १४, ५३, ५;  
 ऋअ २,१,३६; ३, १६; ऋप्रा.  
 प्रे(प्र√ई)क्ष्, प्रेक्षते काश्रौ २, ३,  
 १६××; आपधौ; प्रेक्षे<sup>h</sup> आपधौ  
 १,१७,९; ३,१९, ५; वौश्रौ १,  
 ५ : ३; १२; माश्रौ १, १९, ९;  
 माश्रौ १,२, १, २९; वाश्रौ १,

२,४, २७; हिश्रौ २, ८, १९;  
 प्रेक्षयाः काश्रौ ८, ४, २४<sup>१</sup>;  
 प्रेक्षेत् वौश्रौ २५, १ : २१<sup>१</sup>; काण्  
 १,१८; माण्; प्रेक्षेत् द्राण् २, ३,  
 २०××; प्रेक्षेरन् काठश्रौ ८५.  
 प्रेक्षयति काश्रौ १९, २, ३०;  
 प्रेक्षयेत् जैण् १, २१ : ३३<sup>१</sup>.  
 प्रे(प्र-ई)क्षक- -कान् माण् १, १२,  
 १; जैण् १, २१ : ३१.  
 प्रे(प्र-ई)क्षण- -णम् माश्रौ २, १, ३,  
 ५५.  
 प्रेक्षण-प्रतिप्रेक्षण- -णयोः आपध  
 १,९,११; हिध १,३,११.  
 प्रे(प्र-ई)क्षत्- -क्षन् द्राण् ३,२,१०;  
 १२.  
 प्रे(प्र-ई)क्षमाण,णा- -णः आपधौ  
 १५, २१, ८; वौश्रौ ३, २७ :  
 २४; ९, २० : १८; माश्रौ; -णम्  
 काश्रौ ८,४, २४; वाण् ५, २०;  
 माश्रौ २,३, ७, ३; -णाम् वाण्  
 १४,२३; -णे द्राण् २, ४, ११;  
 ४,१,१३<sup>१</sup>.  
 प्रेक्षमाण-समीक्षण- -णे माश्रौ  
 ४, ३, ४२.  
 प्रे(प्र-ई)क्षित- -तम् गौघ १७,११<sup>१</sup>;  
 सुधप ८८ : ३.  
 प्रे(प्र-ई)क्ष्य शाश्रौ १, ६, ११; वौश्रौ  
 २०, ५ : ३१; वैश्रौ.  
 प्रे(प्र-ई)क्ष्य- -क्ष्यः सु ५, ५.  
 प्रे(प्र-ई)क्ष्यमा(ण>)णा- -णाम् सु  
 २६, २.  
 प्रेक्षा- पाण ४,२,८०; ६,२,८५<sup>k</sup>.

a) वृस.>वस. b) वस. । c) नाप. (शव-वाहक-) । उस. उप. (√वह [प्रापणे]> कर्त्तरि) \*वहार-  
 > नैप्र. \*वहार- इति वा \*वाह-कार- > नैप्र. \*वाहार- इति वा (वैतु. मेधातिथिः [मनुः ५,६४] पूष. दीर्घः  
 उसं. [पा ६, ३, १२२] इतीव?) । यनि. > नैप्र. प्रेतहार- (तु. मनुः [निसा.] इति कृत्वाऽर्वाकरोऽसौ पर्याय इति ।  
 d) वैप १ द्र. । e) पामे. वैप १,२२५१ h द्र. । f) ०प्रेण्यत्स्व० पाठः? यनि. शोधः (तु. आन.) । g) प्रोह-  
 कटा- इति पाका. । h) पामे. वैप १,२१६२ f द्र. । i) पामे. पृ ३६४ i द्र. । j) सपा. विध ५१,१७ कवे-  
 क्षितम् इति पामे. । k) प्रेक्षाकृ- इति पासि., पुंसा- इति पाका. ।

प्रेक्षिन्- पा ४, २, ८०.  
 प्रे(प्र√ई)ङ्ख्, प्रेङ्खयत् शांश्रौ १७,  
 १६, ७१.  
 प्रे (L. प्ले<sup>३</sup> प्र. प्ल-ई)ङ्ख्, ङ्ख<sup>०</sup> - ङ्खम्  
 शांश्रौ १७, १७, ४; १८, २१, ५;  
 आपश्रौ २१, १७, १३; वौश्रौ १६,  
 २० : ४; २१ : ३; वाश्रौ ३, २,  
 ५, ५२; हिश्रौ १६, ६, १०;  
 -ङ्खयोः वीध २, ३, ३५; -ङ्खाः  
 अथ ४, ३७१; -ङ्खे काश्रौ १३,  
 ३, २; -ङ्खौ आपध १, ३१, १४;  
 हिध १, ८, ३६.  
 प्रेङ्ख-फलक- -कम् शांश्रौ १७,  
 १, २; १०, १०××; -कात् शांश्रौ  
 १७, १५, १२; -के शांश्रौ १७,  
 १५, ११; १६, ७.  
 प्रेङ्ख-मिश्र- -श्रम् शांश्रौ १७,  
 ७, ११९; १८, २४, १४.  
 प्रेङ्ख-स्थूणा- -गाम् शांश्रौ १७,  
 १०, ११; १२; ११, ४; -णायाम्  
 शांश्रौ १७, १०, १६.  
 प्रेङ्खा-ताण्डव- > ण्डव-विहार-  
 चित्रदर्शना(न-अ)ङ्गरागो(ग-उ)  
 चान-यान-विवृतशयनो(न-उ)कृ-  
 टपानभोजन-कन्दुकक्रीडा-धूप-  
 गन्ध-माल्या(त्य-अ)लंकार-दन्त-  
 धावना(न-अ)ज्जना(न-आ)दि-  
 -दीनाम् शंघ ३४१.  
 प्रेङ्खा(ङ्ख-अ)वट<sup>०</sup> - टौ शांश्रौ  
 १७, १०, २; ४.  
 प्रेङ्खोल<sup>०</sup> - > √प्रेङ्खोलि > प्रे-  
 ङ्खोलन- नम् आपध २, २०,  
 १३; हिध २, ५, १००.

प्रे(प्र-ई)ङ्खण- -णे माश्रौ ४, ३, २१.  
 प्रे(प्र√ई)ङ्, ङ्, ङ् (ईङ्) आश्रौ ३, ८,  
 १; ८, ८, ४; वैश्रौ १६, १५ :  
 ११; ऋअ २, ७, ५३; वृदे ६, २.  
 प्रेणी- √श्री द्र.  
 प्रेत-, प्रेति- प्रे(प्र√इ) द्र.  
 प्रेतृ- √श्री द्र.  
 प्रेत्य प्रे(प्र√इ) द्र.  
 प्रे(प्र√इ)घ् > ङ् प्रे(प्र-इ)ङ् - ङ्:  
 आश्रौ २, १, ३०; शांश्रौ २, २,  
 १५; आपश्रौ.  
 प्रेघा<sup>०</sup> माश्रौ १, ८, ३, २६१.  
 प्रेप्सत्- प्रमृ. प्रा(प्र√आ)प् द्र.  
 प्रेत्यत्- प्रे(प्र√इ) द्र.  
 प्रे(प्र√ई)ङ्, प्रेतते आपध २, १७, ४१;  
 ङ् प्र<sup>०</sup> ईरते आश्रौ २, १८, ४;  
 शांश्रौ १२, १४, १; हिश्रौ १२,  
 ६, ६; प्र(ईरते) शांश्रौ ३, १५,  
 ९१.  
 प्रेरयति वौश्रौ १, १ : ११; या  
 १४, १४; पाणि ६; प्र<sup>०</sup> ईरयति  
 या १४, १४१; प्र(ईरयामि)  
 आश्रौ ३, ८, ११; ङ् प्र<sup>०</sup> ईरय, >  
 या अर्धं २ : ६१; ऋआ ८, ३०;  
 ङ् प्र(ईरय) आश्रौ ४, १३, ७; ८,  
 ११, ४; शांश्रौ.  
 प्रे(प्र-ई)रि(त>)ता- -ताः वैश्रौ ३,  
 ३ : ६.  
 प्रे(प्र-ई)रितवत्- -वत्तः या ७, २६;  
 ११, ४८.  
 प्रे(प्र-ई)र्त्वन<sup>०</sup> - पाठ ४, ११७.  
 प्रेर्त्वीरीपाः<sup>०</sup> वाश्रौ १, २, १, ९.  
 √प्रेप् पाधा. भ्वा. आत्म. गती.

प्रे(प्र√इ)प् (गती), प्रेष्यति आश्रौ ३,  
 २, ४; ६, १४; शांश्रौ ५, १६,  
 ४××; ७, ८, २१<sup>१</sup>; काश्रौ;  
 आपश्रौ २२, १६, ९१<sup>१</sup>; हिश्रौ  
 १७, ६, ३३१; प्रेष्यतः काश्रौ ९,  
 १३, १३; वैश्रौ १०, २१ : ६;  
 ङ् प्र(इष्ये) आश्रौ ८, ८, ४; ऋअ २,  
 ४, ३३; ३, २४; वृदे ५, १; ङ् प्रेष्य  
 आश्रौ ३, २, १०××; शांश्रौ;  
 पा २, ३, ६१; ८, २, ९१; ङ् प्रेष्य  
 ऽप्रेष्य आपश्रौ ७, १४, ७; २६,  
 १३; वौश्रौ; प्रेष्येत् आश्रौ ८, १,  
 ६; काठश्रौ १४१; वौश्रौ.  
 !अप्रेषीत् अथ ६, १३४.  
 प्रेषयस्व सु ८, १.  
 ङ् प्रे(प्र-इ)प्- प्रेषा ऋअ २, ९, ९७;  
 ३, २९.  
 प्रे(प्र-ए)पण<sup>१</sup>- (> प्रैपणिक- पा.)  
 पाठ ४, ४, १२; ५, १, ६४.  
 प्रे(प्र-इ)पित- -तः आश्रौ १, १, २७;  
 ५, ३××; काश्रौ; या ८, ८; -तः  
 ऽ-तः आश्रौ ५, ५, १५; ८, ४;  
 -तस्य विध ५, ११२; -ङ् ताः  
 आपश्रौ १२, १०, २; वैश्रौ १५,  
 ११ : १८; हिश्रौ; -ते काश्रौ ५,  
 ५, ५; हिश्रौ ३, ७, ५; कौसु  
 ११४, २१.  
 प्रे(प्र-इ)प्य<sup>०</sup> - -प्यः गौध ६, १३;  
 -प्यम् हिद्य १, १४, २; -प्याः  
 काय ६५, ८; वीद्य; -प्यान्  
 वीध १, ५, ८०; -प्येपु अप ७१,  
 १७, ६.  
 प्रेष्या(ध्व-अ)न्तेवासिन्- -सिनः

a) आपश्रौ. वौश्रौ. वैश्रौ. हिश्रौ. आपध. पाठः । b) वैप १ द्र. । c) पूष. = प्रेङ्खन्धनार्ध-  
 रज्ज्वादि- इति भाष्यम् । d) मलो. कस. । e) प्रेङ्ख-दोल- [तृस.] > नैप्र. यनि. । f) वैप १ द्र. ।  
 g) पाठः ? शोधः वैप १, २२५२ g द्र. । h) पाभे. वैप २, ३३०. यजन्ते शांरा १३, ९ टि. द्र. । i) प्रै<sup>०</sup> इति  
 पाठः ? यनि. शोधः (तु. हिश्रौ १७, ६, ३३) । j) पाठः ? प्रेषीत् इति शोधः संभाव्येत । k) उप. भावे करणे  
 च कृत् । l) विप., नाप. । उप. वयप् प्र. (तु. P. प्रमृ.; वैतु. पाणि. [पावा ६, १, ८८] < प्रे[प्र√ई]प् इति) ।

हिद्य १, २२, १४१.  
 प्रेष्या(ष्य-अ)मात्य- त्याः  
 हिथ्रौ ५, २, ३४.  
 प्रेष्या(ष्य-अ)थे- थे ऋत ३,  
 ४, ७.  
 प्रेष्या(ष्य-अ)हत- तम् गौघ  
 २, ५७.  
 प्रै(प्र-ए)ष<sup>a</sup>- पावा ६, १, ८८; -पः  
 आश्रौ ३, ४, ३; ९, ३××;  
 शांश्रौ; वृदे १, ३५; ५७;  
 -पम् आश्रौ ३, २, १०××;  
 माश्रौ; -पाः आश्रौ ३, २, २;  
 ४, ८××; शांश्रौ; या ५, ३;  
 -पात् आश्रौ ३, १, २१; काश्रौ  
 १०, १, १५; भाश्रौ ८, २, ५;  
 -पान् आश्रौ ३, १, २०; शांश्रौ;  
 -पाय वौघ ३, ८, ६; -पे  
 माश्रौ २, ४, २, ४××; हिथ्रौ;  
 -पेऽ-पे जैश्रौका २०७; -पेण  
 आश्रौ ५, ४, ५; आपश्रौ २१,  
 ७, १५; माश्रौ २, ४, २, ११;  
 हिथ्रौ १६, ३, ३४; -पेषु आश्रौ  
 ४, १, १३; शांश्रौ; -पैः आश्रौ ३,  
 २, ४; वाधुश्रौ ४, १९ : ३४;  
 वृदे २, १५२; -पौ आश्रौ ५, ५,  
 ३; ६; शांश्रौ ७, २, ३.  
 प्रैप-कर-रः आपघः १, १८,  
 २८<sup>b</sup>.  
 प्रैप-कार-रः वौश्रौ १, ९ : ५.  
 प्रैप-कृत्-कृत् भाग १, ७ : ३;  
 १५ : ३; कौस् २६, ४××; हिघ  
 १, ५, ९६<sup>b</sup>; -कृतः लाश्रौ ९, ८,  
 ६; -कृतम् कौस् ८७, ५; १२;

-कृते अप ४, ४, ४.  
 प्रैप-गत-तम् वृदे २, १५४.  
 प्रैप-चरण-णम् निस् १०,  
 ११ : ४.  
 प्रैप-दर्शन-नात् काश्रौ १९, ४,  
 ३.  
 प्रैप-निविद्-विदः आपश्रौ  
 १६, ३२, ४; वैश्रौ १८, २१ : ११.  
 प्रैप-प्रतीक-याज्य<sup>c</sup>-ज्याः  
 आपश्रौ ८, २, १५.  
 प्रैप-वचन-नात् आश्रौ ३,  
 १, १८.  
 प्रैप-वत्-वन्तः वौश्रौ १७,  
 ५५ : १२; ५६ : १२; १८××;  
 -वन्तौ वौश्रौ १७, ५७ : २८;  
 -वान् वौश्रौ १०, ५५ : १२;  
 ५९ : ७××; वाश्रौ १, ७, ५,  
 २२<sup>d</sup>.  
 प्रैप-वर्जम् आपश्रौ ८, ३, १.  
 प्रैप-शेष-षम् वैश्रौ १६, १८ :  
 ५.  
 प्रैप-संनिधान-नात् मीस् ३,  
 ७, ४५.  
 प्रैप-स-लि(ङ्ग>)ङ्गाभिः  
 आश्रौ ३, २, ५.  
 प्रैप-सूक्त-क्तम् आश्रौ ३, २,  
 ३; ६, १२; ५, ८, ३; वृदे २,  
 १५२; १५४.  
 प्रैपा(प-अ)तिसर्ग-प्राप्तकाल-  
 -लेषु पा ३, ३, १६३.  
 प्रैपा(प-अ)दि-दिः आश्रौ ३,  
 ८, ७; -दिषु पावा ३, ३, १६३.  
 प्रैपा(प-अ)नुवचन<sup>f</sup>-नम् मीस्

३, ७, ४४.  
 प्रैपा(प-अ)नुवाचन-ने काश्रौ  
 १, ९, १६.  
 २प्रैपा(प-अ)नुवाचन<sup>g</sup>-नयोः  
 काश्रौ १०, ४, ११.  
 प्रैपा(प-अ)न्त-न्ते शांश्रौ ७,  
 ८, ६; आपश्रौ १२, २७, ७.  
 प्रैषिक<sup>h</sup>-कम् या ८, २२.  
 प्रैषो(प-उ)त्(र>)रा<sup>i</sup>-र्या  
 आपश्रौ २१, ७, १५.  
 प्रैषो(प-उ)पचय-यः काश्रौ  
 १०, १, १८.  
 प्रै(प्र-ए)षण-णम् आम्रिष्ट २, ७,  
 ११ : १८; -शण् चाश्र ४१ : १५  
 प्रैषणी<sup>j</sup>-ण्याः अप्रा २, १,  
 ११; ३, २०; ३, ३, १९.  
 प्रै(प्र-ए)ष्य-पावा ६, १, ८८.  
 प्रैष्यो(ष्य-अ)कार-रौ हिथ्रौ  
 २१, २, ३४.  
 प्रैष्ट<sup>k</sup>-ष्टान् वाश्रौ ३, १, २, ३.  
 प्रैष्टनी<sup>l</sup> आम्रिष्ट ३, ७, २ : ९.  
 प्रैष्यत्-प्रैहि-कटा-प्रष्ट. प्रै(प्र√इ)  
 द्र.  
 प्रैयक-प्रियक-द्र.  
 प्रैयङ्गव-प्रियङ्गु-द्र.  
 प्रैयमेघ-प्रैयरूपक-√प्री द्र.  
 प्रैष्यन्<sup>m</sup> अप्रा २, ४, १५<sup>n</sup>.  
 प्रो(प्र-उ)क्त-प्र√वच् द्र.  
 प्रो(प्र√उ)क्ष्, प्रोक्षति काश्रौ २, ७,  
 १६; ५, ३, ३२××; आपश्रौ;  
 प्रोक्षतः वौश्रौ ५, ६ : १; २<sup>o</sup>;  
 प्रोक्षन्ति वौश्रौ १५, ५ : १७;  
 १९; २४; २६; २६ : १६; प्रोक्षे

a) वैप १ द्र. । b) सपा. ँकरः <> कृत् इति पाभे. । c) वस. > कस. । d) ँवच् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. वौश्रौ १०, ५९ : ७) । e) तुस. > वस. । f) समाहारे द्रस. । g) द्रस. । h) तात्रभविकप् ठक् प्र. । i) वस. । j) णे इति संस्कर्तुः टि. । k) = लोट्-लकार- । l) विप. > नाप. (अश्व-). व्यु. ? । m) प्रोष्टिनीम् इति शोधः विमृश्यः (तु. आपश्रौ १८, ६, ४) । सपा. चौपि १, १७ : २९ ? प्रोष्टान् इति पाभे. । n) पाभे. वैप १, १७१७ ८ द्र. ।

आपथ्रौ ३, १९, ३; †प्रोक्षामि  
शांथ्रौ ४, १७, ८; काथ्रौ ६, २,  
१६६; आपथ्रौ १, १९, १<sup>a</sup>; ७,  
१३, १०<sup>b</sup>××; काथ्रौसं; वौथ्रौ  
१, ६ : ८<sup>a</sup>; ४, ५ : २०<sup>c</sup>; माथ्रौ  
७, १०, १०<sup>c</sup>; माथ्रौ १, २, २, २<sup>a</sup>;  
वाथ्रौ १, २, ४, ३८<sup>a</sup>; वैथ्रौ १०,  
१० : १३<sup>b</sup>; हिथ्रौ ४, ३, २०<sup>b</sup>;  
कौस् २, १५<sup>a</sup>; †प्रोक्ष काथ्रौ २,  
२, ९; आपथ्रौ ३, १९, ३; माथ्रौ;  
प्रोक्षेत् आपथ्रौ १२, ३, ५××;  
वौथ्रौ; प्रोक्षेयुः आपथ्रौ २०, ८, २.  
प्रोक्षिष्यामि आपथ्रौ १, १९, १;  
माथ्रौ १, २०, १०××; वाथ्रौ;  
प्रोक्षीः वौथ्रौ २४, २५ : १२.  
प्रोक्षयते आमिथ्र १, १, १ : २०<sup>d</sup>.  
प्रोक्षयति वैथ्र १, ३ : १०; ७ :  
११××; प्रोक्षेत् आमिथ्र २, ३,  
४ : ८; ५, २ : १३; वैथ्र.

प्रो(प्र-उ)क्ष<sup>e</sup>- -क्षे हिथ्रौ १, १, ३८;  
२, ८, १४; -क्षेण वौथ्रौ १५,  
२६ : १४.

प्रोक्षा(क्ष-आ)दि<sup>f</sup>- -दि आपथ्रौ  
५, २०, ५; ६, २९, १४.

प्रोक्षा(क्ष-अन्त)न्ता<sup>g</sup>- -न्तम्  
माथ्रौ १२, ५, १०; -न्ताम्  
आपथ्रौ ७, ६, ३; माथ्रौ ७, ४, ५;  
६, १<sup>h</sup>.

प्रो(प्र-उ)क्षण- -णम् शांथ्रौ ४, २०,  
४; काथ्रौ २, ३, ३५; ८, ६, २६;  
आपथ्रौ; -णात् माथ्रौ १२, ६,  
५; माथ्रौ; -णे काथ्रौ ६, ३, २०;  
आपथ्रौ ७, १२, ९; वौथ्रौ २०,

४ : ६××; -णेन वौथ्रौ २५,  
३० : १४; माथ्रौ १, ५, ५, १९;  
अप; -णैः वैथ्र २, १२ : ३××.

प्रोक्षणी<sup>i</sup>- -णीः काथ्रौ २,  
३, ३९; ६, २५××; आपथ्रौ;  
-णीनाम् आपथ्रौ ८, १४, ३××;  
वौथ्रौ; -णीमिः काथ्रौ ६, ३,  
२७; वौथ्रौ ४, २ : ४१××;  
माथ्रौ; -णीभ्यः काथ्रौ २, ७, ५;  
-णीम् माथ्रौ १, १, ३, १; वाथ्रौ;  
-णीयु वौथ्रौ १, १२ : ४९××;  
माथ्रौ; -ण्यः वौथ्रौ २४, २५ :  
११<sup>i</sup>†; ३६ : ४; २५, २ : ५.

प्रोक्षणी-कुम्भ- -म्भे  
वैथ्रौ ९, ४ : ११.

प्रोक्षणी-धान<sup>j</sup>- -नम्  
वौथ्रौ १, १२ : १३; ४, ५ : २३;  
११, ३ : ३५.

प्रोक्षणीधानी<sup>k</sup>- -नी  
माथ्रौ ११, ५, १२; वैथ्रौ १२, ७ :  
११; १७ : ३†; हिथ्रौ २४, २,  
५; -नीम् आपथ्रौ १५, १५, १;  
माथ्रौ ११, १५, ७; हिथ्रौ २४,  
६, १२; -न्याः आपथ्रौ १५, ५,  
१०; -न्याम् माथ्रौ ११, ६, १.

प्रोक्षणी-पात्र- -त्रम् वौपि  
२, ९, २; माथ्र १, २ : १०.

प्रोक्षणी-भाजन- -नम्  
आपथ्रौ ८, १३, १७.

प्रोक्षणी-वत् आपथ्रौ १,  
१६, ५; २४, ३; वैथ्रौ ४, ९ : १२.

प्रोक्षणी-शेष- -पम्  
आपथ्रौ १, १९, ३; २, ८, ३××;

८, १०, ५<sup>l</sup>; वाथ्रौ १, ३, ३, ६<sup>l</sup>;  
-षेण वौथ्रौ २४, ३६, १५; वाथ्रौ  
१, ६, ३, १८; वैथ्रौ ८, १० : ७.

प्रोक्षणी-संस्कार- -ः  
आपथ्र १, १९.

प्रोक्षणी-हस्त<sup>m</sup>- -स्तः  
वौथ्रौ २५, १२ : ६; १५ : १९.

प्रोक्षण्य(णी-अ) भिमन्त्र-  
णा(ण-आ)दि- -दि वैथ्रौ १४,  
१७ : ५.

प्रोक्षण्य (णी-अ) वनप-  
न-> न-यवमासन-वर्हिर्वस्त-  
ण-नुवाभिहीम- -मान् वैथ्रौ  
१४, ८ : १२.

प्रोक्षण्य(णी-अ)वशेष-  
-षम् माथ्रौ ८, ११, २२; १२, २,  
२०; हिथ्रौ १, ७, ५९××.

प्रोक्षण्यु(णी-उ)च्छेष-  
-पम् वैथ्रौ १०, ५ : २५.

प्रोक्षण्यु(णी-उ)द्विक<sup>n</sup>-  
-केण आपथ्रौ ८, ११, ३, १६; काथ्रौ  
८, १५, १६; हिथ्रौ १, ५, ३, २५;  
४, २०.

प्रोक्षण-काल- -लेः वैथ्रौ १८, ४;  
६.

प्रोक्षण-कूर्च<sup>o</sup>- -कूर्चम् वैथ्र १,  
८ : ७.

प्रोक्षण-तस् (ः) वौथ्रौ १०, १०;  
११.

प्रोक्षण-प्रभृति- -तिः वौथ्रौ २४,  
३५ : ३; माथ्रौ १, ८, १, २३;  
२, २, २, ४; -तिना वौथ्रौ २६,  
६ : ४; -तीनि वैथ्रौ १, १५ :

a) पामे. वैप १, २२५४ g द्र. । b) पामे. वैप १, १२३८ b द्र. । c) पामे. वैप १, २२५४ h द्र. ।

d) पाठः? ंते इति शोधः । e) उप. भावे प्र. । f) वस. । g) ंता इति पाठः? यनि. शोधः (ह. पूर्व  
स्यलम्) । h) नाप. (अप्य- [उपचारात्] पात्र-) । उप. करणे कृत् । i) षक्षि<sup>o</sup> इति पाठः? यनि. शोधः ।  
j) नाप. (पात्र-) । कास. उप. अविकरणे इत् । k) =हुग-भेद- । l) परस्परं पामे. । m) षाम् इति पाठः?  
यनि. शोधः । n) =प्रोक्षणी-शेष- । o) मलो. कस. ।

५; हिश्रौ ३,५,१०.  
 प्रोक्षण-मार्जन- -ने हिश्रौ २२,  
 ३, ७.  
 प्रोक्षणा(ण-आ)दि- -दि काश्रौ  
 ८,८,२३; काठश्रौ ८८; आगृ ४,  
 ८,१६.  
 प्रोक्षणा(ण-अ)वशेष<sup>३</sup>- -पम्  
 हिश्रौ ५,३,१५<sup>४</sup>.  
 प्रोक्षणो(ण-उ)पाकरण-वर्जम्  
 आगृ २,४,१३.  
 प्रोक्षणो(ण-उ)ल्लेखना(न-आ)  
 दि- -दि वैगृ ४,१० : ६.  
 प्रो(प्र-उ)क्षत्- -क्षन् आपश्रौ १,  
 १८, १; ९, १०, ९; वौश्रौ;  
 -क्षन्तम् माश्रौ ५,२,१५,१२.  
 प्रो(प्र-उ)क्षमाण- -णानाम् विध  
 ६८,४६.  
 प्रो(प्र-उ)क्षयित्वा आमिगृ ३, १०,  
 २ : १३.  
 प्रो(प्र-उ)क्षित,ता- -तम् ङवौश्रौ  
 १५,७ : १८; ३९ : ६; ७; वैगृ  
 १, १ : ८<sup>५</sup>; वैध २, १५ : ३;  
 -ताः शाश्रौ १४, ६२,३; काश्रौ  
 २, ३, ३५<sup>६</sup>; वौश्रौ; -तान्  
 आपश्रौ २२, २०, १२; हिश्रौ  
 १७,७,२३; २५-२७; -तानाम्  
 वौगृ ४, २, ५; -तानि आपश्रौ  
 १५, ६, ५; भाश्रौ ११, ६, ७;  
 वैश्रौ; -ताभ्याम्-काश्रौ ९, १०,  
 ३; आपश्रौ १२,२२, २; वौश्रौ;  
 -ताम् भागृ २, १६ : ७; हिगृ  
 २,१५,४; -तेषु वैश्रौ १०, ७ :  
 ६; १५, ४ : ९; हिश्रौ २, ४,  
 २९××; -तौ काश्रौ ९, १०,

११; आपश्रौ.  
 ङप्रोक्षिता(त-अ)प्रोक्षित- -तान्  
 हिश्रौ ८,७,१; ९, २, ५; -तैः  
 वौश्रौ ७, १३ : ७; ८, ४ : ३;  
 वैश्रौ १५, २७ : १४; १६, ४ :  
 १२; -तौ काश्रौ ९, १०, ३९.  
 प्रोक्षिते(त-इ)धम-शकल-  
 -लाभ्याम् माश्रौ २,४,१,९.  
 प्रो(प्र-उ)क्षियन्- -प्यन्तम् वाश्रौ  
 १,१,५,११.  
 प्रो(प्र-उ)क्ष्य आपश्रौ १,१०,१४××;  
 वौश्रौ; आपध १, १६, ७<sup>८</sup>.  
 प्रो(प्र-उ)क्ष्यमाण- -णम् वैश्रौ ५,  
 ५ : ७; हिश्रौ ६,२, ९; -णानि  
 आपश्रौ १,११,१०.  
 प्रो(प्र-उ)च्य, च्यमान प्र√वच् द.  
 प्रो(प्र-उ)ढ- प्र√वह् द.  
 प्रो(प्र-उ)त- प्र√वे द.  
 प्रो(प्र-उद् >)त् √कृप् > प्रोत्-कृ-  
 (ष्ट>)ष्टा- -ष्टाः अप ५५,६,४.  
 प्रो(प्र-उद् >)त् √कुल् > प्रोत्-  
 कुल्- > ल्ल-कुसुदा(द-आ)  
 कार<sup>९</sup>- -राः अप ६८,१,३३.  
 प्रोत्कुलो(ल्ल-उ)त्पलकुन्देन्दु-  
 कुसुदा(द-आ)भो(भ-उ)त्प-  
 ल-द्युति<sup>९</sup>- -तिः अप २४, ३,  
 २.  
 प्रो(प्र-उ)त्य प्र√वे द.  
 प्रो(प्र-उद् >)त् √सृज्, प्र...उत्स-  
 जन्ति हिश्रौ १४,३,५५<sup>९</sup>.  
 प्रोथ् पाधा. भ्वा. उभ. पर्याप्तौ.  
 प्रोथ- पाठ २,१२; पाग २,४,३१.  
 प्रोथत्- प्रम्. √पृथ् द.  
 प्रो(प्र-उ)दक<sup>९</sup>- -कम् वौश्रौ १७,३१ :

१५; गोगृ १,३,७; -कयोः आपध  
 १,१०,२७; हिध १, ३, ५४.  
 प्रोदकी√भू > प्रोदकी-भाव-  
 -वात् आपध २, १९, ८; हिध  
 २,५,८०.  
 प्रो(प्र-उ)द् √यम्, ङप्र(उदयंस्त)  
 आश्रौ ८, ६, १३; शाश्रौ ११,  
 १४,१६.  
 प्रो(प्र-उ)प√स्तु, प्र...उपस्तुहि वौपि  
 १,१५ : ७<sup>१०</sup>.  
 प्रो(प्र-उ)प√स्तु, प्र...उपस्तुहि  
 आमिगृ ३,८,१ : २८<sup>११</sup>.  
 प्रो(प्र-उ)पे(प√इ), प्र...उपयन्तु ऋप्रा  
 ८,५<sup>१२</sup>.  
 प्रो(प्र-उ)प्य प्र√वप् द.  
 प्रो(प्र√उ)भ<sup>१</sup> > प्रो(प्र-उ)भ्य शाश्रौ  
 ४, १४,१३.  
 प्रो(प्र-उ)र्णु, प्रोर्णुते काश्रौ ७, ३,२४;  
 १०,७,२; २६, ३, २; आपश्रौ;  
 प्रोर्णोति वौश्रौ ४, ६ : ६२××.  
 भाश्रौ; प्रोर्णोति काश्रौ ६,६,११;  
 प्रोर्णुवन्ति आश्रौ ६, १०, ६;  
 प्रोर्णुवीमि सु ११, ४; ङप्रोर्णोत्  
 आपश्रौ १९, १४, १३; वौश्रौ  
 १९, ६ : १२; हिश्रौ २३,३,११;  
 ङप्रोर्णुताताम्<sup>१</sup> माश्रौ १, ८, ४,  
 १५; वाश्रौ ३,४,४,१५; ङप्रोर्णु-  
 वायाम् कौस् ४४,३४<sup>१</sup>; ङप्रोर्णवा-  
 याम् आपश्रौ ७, १९,१; वौश्रौ  
 ४, ६ : ६२; भाश्रौ ७, १४,१३;  
 वैश्रौ १०,१५ : २; हिश्रौ ४, ४,  
 १८; प्रोर्णुयात् वौश्रौ २५,३२ :  
 ५,७××.  
 प्रो(प्र-उ)र्णुत्य वैश्रौ १६,१८ : १२<sup>१३</sup>;

a) पू. = प्रोक्षणी-। b) पामे. पृ १७७८ l द्र.। c) पामे. पृ ३२९ a द्र.। d) कस. > वस.।  
 e) कस. > द्रस. > वस. > कस. > वस.। पाठः? तु. संस्कृतः टि. 'दाभोऽनल' इति। f) सपा.  
 आपश्रौ २०,१७,५ उत्सजन्ति इति पामे.। g) मलो. वस.। h) पामे. वैप १,२१८९ k द्र.। i) घा. वन्वने  
 वृत्तिः। j) पामे. वैप १,२२५५ f द्र.। k) पामे. पृ ९ v द्र.।

प्रोषादसाविरसि मागृ २,७,११.

प्रोषित- विवस्-प्रवस्(यात्रायाम्) द्र.

प्रोषा- छम् आपश्रौ २२, २८, ४; वौश्रौ १८, १९ : ४९; ५; हिश्रौ २३, ४, ४४; वौगृ २, ४, ४; -छान् वौषि १, १७ : २९<sup>०</sup>.

प्रोष-पद-दा- पा ५, ४, १२०; -दयोः आश्रौ २, १, १०; अप १, ८, ७××; अशां १३, ४; अप १, ११, ५१; -दाः हिश्रौ ३, २, ४; अप १, ८, ६; -दाभ्यः शांगृ १, २६, २४; २५; -दाभ्याम् अशां १२, ४; -दासु माश्रौ १, ५, १, ७; कौगृ ४, ४, २; शांगृ ४, १७, २; -दे कौसू १४०, २; अप १, ३, १; -देभ्यः वैगृ ३, २० : १०; ११; -देषु आपश्रौ ५, ३, १४; वौश्रौ २८, ४ : १२; भाश्रौ ५, १, १८; हिश्रौ ३, २, १९; -दैः आगृ २, १०, ३; भागृ १, २२, २; -दौ अगृ १, २, १; १४, १; ५७, १, १.

प्रोषपद-

प्रोषपदा- -दाभ्यः पागृ २, १५, २.

प्रोषपदी- -दी विध ७६, १; -दीम् वागृ ८, १; गोगृ ३, ३, १; द्रागृ ३, २, १४; -द्याम् पागृ २, १५, १; जैगृ १, १४, १; कौसू १४१, २; वाघ.

प्रोषपद- -दे कप्र ३, ९, ३; अप १९, १, २.

प्रोषपदिक- पा ४, २, २५.

प्रोषपद- -> षदी- -दीम्

गौघ १६, १; -द्याः आगृ २, ५, ९.

प्रोषपद-हस्त- -स्तौ वैगृ २, ५ : १.

प्रोषपदा-द्वय- -यम् अशां ६, ३.

प्रोषपदा-नु( क > )का-

-कायाम् विध ९०, १४<sup>६</sup>.

प्रोष-पदि- प्रोह-पदि- टि. द्र.

प्रोषपाद- पा ७, ३, १८.

प्रोषि(नु >)नी- -नीम् आपश्रौ

१८, ६, ४; वाश्रौ ३, १, २, २४<sup>११</sup>;

हिश्रौ १३, २, १८.

प्रोष- (> प्रोष- पा.) पाग ४,

१, ११२.

प्रोषिक- (> प्रोषिक- पा.) पाग

४, १, ११२.

प्रो(प्र-उ)प्य प्रवस्(यात्रायाम्) द्र.

प्रो(प्र-ऊ)ह (प्रापणे), प्रोहति काश्रौ

२, ५, ७; आपश्रौ १, २१, ६××;

वौश्रौ; या १, १५; प्रोहतः वैश्रौ

१४, ६ : ११; प्रोहन्ति वौश्रौ

६, २५ : १७; २७ : १५; निसू

८, १ : १६; प्रोहामि शांश्रौ ४,

९, ५; प्रोहन्तु जैश्रौ ९ : १; २<sup>२</sup>;

प्रोहाणि या १, १५१; प्रोहेत्

वौश्रौ २०, ७ : १६; १७; जैश्रौका;

प्रोहेयुः द्राश्रौ ३, १, १८; २०;

लाश्रौ १, ९, २०; २२.

प्रोह > -ह-कटा- प्रेहि-कटा- टि. द्र.

प्रोह-कपर्दा-, -ह-कर्दमा- पाग

२, १, ७२.

प्रो(प्र-ऊ)हण- -णम् हिश्रौ २, ५, ४.

प्रो(प्र-ऊ)ह काश्रौ ९, ५, १२;

काश्रौ १२४; वैश्रौ.

प्रोह-> प्रोह-पदि- पा, पाग २, १, ७२<sup>६</sup>; ५, ४, १२८<sup>१</sup>.

प्रौ(प्र-ऊ)ह- पावा ६, १, ८८; -हेण

वौश्रौ २४, ६ : ६; १०.

प्रोहमाण-, -मान- प्रवह द्र.

प्रौग- -> प्रा(ग-आ)कृति- -तिम्.

मागृ १, ६, २.

प्रौढ- प्रवह द्र.

प्रौढकलायन- -नाः वौश्रौप्र ५ : २.

प्रौढि- प्रवह द्र.

प्रौष्ट- (> प्रौष्ट-) प्रोष्ट- टि. द्र.

प्रौष्टक- (> प्रौष्टक-) प्रोष्टिक- टि. द्र.

प्रौष्टपद-, -पदिक- -पदी-

१ प्रोष्ट- द्र.

प्रोष्ट- (वधा.) पाधा. भ्वा. उभ. अर्द्धने.

प्रोष्टोति आमिष्ट ३, ५, ४ : ४;

१२; १९.

प्रोष्ट- पाठ ३, ६३; पाग ४, २,

९१; २, १६२; -क्षः गोगृ ४, ७,

२२; कौगृ २, ६, ९; अप २६,

५, ७; -क्षम् गोगृ ४, ७, २०;

-क्षस्य पावा २, २, २९; -क्षत्

गोगृ ४, ७, २१; -क्षे अप ७१,

१६, १; -क्षेण पावा १, २, ६४;

२, २, २९.

प्रोष्टाक्ष- पा ४, ३, १६२; -क्षः

वौश्रौ २३, ७ : २१; -क्षम्

वौश्रौ १२, ४ : ३; १४, १८ : ७.

प्रोष्टाक्षी- -क्षीः अप ६५,

३, ५; -क्षीम् काश्रौ ५२.

प्रोष्टाक्षीय- पा ४, २, ९१.

प्रोष्टाक्ष-त्त्व- -त्वात् पावा २, २, २९.

a) वैष १ द्र. । b) पाभे. पृ १७७७ III द्र. । c) = [तन्नक्षत्रीय-] देवता-विशेष- । d) = (माद्रपद- मासस्य) पौर्णमासी- । e) = माद्रपद-मास- । f) = प्रोष्ट-पदी- । गृह्यभावरत्नानन्दसः । g) प्रोष्टपद्यु इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. जी. सं.) । h) ष्ट इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ.) । i) व्यप. । व्यु. ? । प्रोष्ट- इति पाका. । j) व्यप. । व्यु. ? । प्रोष्टक-, मोष्टक- इति [पक्षे] पाति. । k) तु. पागन. । l) प्रोष्ट-पदि- इति पाति. । m) लैवि. <प्रउग- । n) वस. । o) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । p) तु. BFG. । q) धा. छेदने श्रुतिः ।

प्लक्ष-द्वीप<sup>a</sup>-पम् शंघ ११६: ५.

प्लक्ष-पवित्र-पादुका->का (का-  
आ) सन-त्रैणवदण्ड-शिक्य-कम-  
ण्डत्व (लु-अ) लावुपात्र-त्रम्  
आमिगृ २,७,११:३.

प्लक्ष-त्र(न>)ण-पा ८,४,५.

प्लक्ष-शाखा-न्त्या आपश्रौ ७,  
१२, ८; वौश्रौ २०, २७: ६,  
वैश्रौ १०,१२: ९; हिश्रौ ४, ३,  
४:४७; -खा: काश्रौ ६, २, ७;  
हिश्रौ ९, ८, ३६; १३, १, २४;  
-खाभि: आपश्रौ ७, ६, ३×४;  
वैश्रौ; -खाम् आपश्रौ ७, ८, ३;  
१२, ५; वौश्रौ; -खाया: माश्रौ  
१, ८, ५, १८; -खायाम् आपश्रौ  
७, २०, ४; २३, १२; वौश्रौ;  
-खासु काश्रौ ६, ८, ७; आपश्रौ.  
प्लक्षशाखा(खा-अ)त्र-त्रेण वाश्रौ  
३, ४, ३, २४.

प्लक्षशाखा-वव-वति गोगृ ४,  
१, ९.

प्लक्षशाखो (खा-उ)त्तर-वहिं  
स<sup>b</sup>-हि: भाश्रौ ७, १८, ८०.

प्लक्षा(क्ष-अ)प्र-अम् वैघ २, ४, २.

प्लक्षो(क्ष-उ)दुम्बर-रस्य कौम्  
२२, २; ७५, १९.

२प्लक्ष<sup>d,e</sup>->प्लाक्षि-क्षय: वौश्रौप्र  
४८: ३; -त्ते: तैप्रा १४, १०.

प्लाक्षायण-णस्य तैप्रा १४,  
११.

प्लाक्षि-कौण्डिन्य-नौतम-पौष्क-  
रसादि-दीनाम् तैप्रा ५, ३८.

प्लाक्षि-प्लाक्षायण-णयो:

तैप्रा ९, ६; १४, ११; १८, ५.

३प्लक्ष<sup>f</sup>-क्षम् हिश्रौ १८, ४, ३९<sup>g</sup>;  
लाश्रौ १०, १७, १२; १४; -क्षे  
काश्रौ २४, ६, ७.

२प्लाक्ष<sup>h</sup>-क्षम् आश्रौ १२, ६, २७;  
शाश्रौ १३, २९, २०; आपश्रौ  
२३, १३, ४; ५; -क्षे वौश्रौ १६,  
२९: १५; ३०: ८.

प्लुति<sup>i</sup>->प्लुत<sup>j</sup>-त: ऋअ २, १०,  
६३; शुअ २, ४५३.

प्लु(<प्र)-योग->प्लुयोगि<sup>k</sup>-गि:  
शाश्रौ १६, ११, १७; ऋअ २, ८,  
१; शैशि ७०<sup>l</sup>.

√प्लु<sup>m</sup> पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ.

१प्लाक्ष-, ०क्षी- १प्लक्ष-द्र.

प्लुवयत्-प्रमृ. √प्लु द्र.

प्लाशि<sup>n</sup>-शिश्य: आपमं १, १७, ३<sup>o</sup>.

प्लाशुक<sup>p</sup>-कानाम् काश्रौ १५, ४, ५.

√प्लिद् पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ.

√प्ली(=√व्ली, व्ली)<sup>q</sup> पाधा. कया.

पर. गतौ, वरणे<sup>r</sup> धरणे<sup>s</sup> च

प्लीहन<sup>t</sup>-पाउ १, १५९; -हा विघ  
९६, ९१; -हानम् आपश्रौ ७,  
२२, ६; २४, १२; भाश्रौ.

प्ली(ह>)हान्कर्ण<sup>u</sup>-र्ण: शुप्रा ३,  
१२९.

प्लीहाकर्णी-ऋत ५, १, ३.

√प्लु<sup>v</sup> पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ,

प्लुते वैताश्रौ १९, ७; वाघ १३,

४६; निघ; प्लुवन्ते आमिगृ ३, ६,

१: ३२; ३: ३६; ऋप्रा ९, १;

प्लुवसे आपमं २, १६, ५<sup>w</sup>; भाग  
२, ७: १५; प्लुवामहे काश्रौ  
१३, ३, २६; आपश्रौ; प्लुवस्व या  
९, ७<sup>x</sup>; प्लुवेत मागृ १, १, १४;  
प्लुवेत् वीघ १, २, ४१; प्लुवेत्  
अप ३७, १६, १.

प्लुवयति काश्रौ १०, ९, १; १९,  
५, १३; २०, २, २; वैघ ३, १५,  
१; प्लुवयेत् आश्रौ १, ५, ७;  
शाश्रौ १, २, १; हिश्रौ.

प्लुव(वप्रा.)-पाग ३, १, १३४; -व:  
वाधूश्रौ ३, ३१: २<sup>y</sup>; निसू ६,  
१०: २८<sup>z</sup>; अप ६४, ३, ५<sup>aa</sup>;  
आपघ १, १७, ३३<sup>ab</sup>; हिघ १, ५,  
६४<sup>ac</sup>; -वम् आपश्रौ २२, ४,  
२७<sup>ad</sup>; वाधूश्रौ ३, ३१: ३; ५;  
जैश्रौप ६<sup>ae</sup>; लाश्रौ ८, ५, १४<sup>af</sup>;  
निसू<sup>ag</sup> ४, १२: ३४; ३७; कौय  
३, १३, १७<sup>ah</sup>; शांय ४, १४, ५<sup>ai</sup>;  
आमिगृ ३, ८, २: ४६<sup>aj</sup>; काय  
४५, १०<sup>ak</sup>; वौपि १, १५:  
५३<sup>al</sup>; मागृ २, १, १४<sup>am</sup>;  
हिपि १५: २०<sup>an</sup>; अप २१,  
५, ४; शंघ ४२६<sup>ao</sup>.

प्लुवं-न<sup>p</sup>-ना: अप ७०<sup>ar</sup>, १८, ४.

प्लुव-रूप<sup>q</sup>-पम् आगृ १, १२, ६.

प्लुवा(व-अ)तिप्लुत<sup>r</sup>-ता: निसू  
४, १२: ३७.

प्लुवाक-पाउना ४, १४.

प्लुवान-नम् हिश्रौ २१, २, ३४;

शंघ १८३; आपघ १, ५, १७;

हिघ १, २, १८; -नेन वाघ १४,

a) = द्वीप-विशेष-। b) वस. > कस. (तु. हिश्रौ ४, ५, ३ भाष्यम्)। c) ०ं वं इति संस्कृतुः टि.।

d) व्यप.। व्यु. ?। e) वैप २, ३खं. द्र.। f) = (सरस्वत्याः) उद्गम-स्थान-। g) स्वार्थे प्र.। h) व्यप.

(गय-। अपत्यार्थे प्र.। i) वैप १, २२०० d द्र.। j) तु. BPG.। √प्लु (यद्र.) इति (पक्षे) BPG.।

k) वैप १ द्र.। l) पाभे. वैप १, २२५६ g द्र.। m) पा ७, ३, ८० परामृष्टः द्र.। n) तु. BPG.।

o) पा ६, ४, ५८; ७, ४, ८१ परामृष्टः द्र.। p) = नौका-। q) = साम-विशेष-। r) भाप.। s) = जल-नायस-।

t) नाप.। उप. < √गम्। u) वस.। v) उप. = तीर्ण-।

२६.  
 झावयत्- -यन् आश्रौ १, २, ६; ४,  
 १३.  
 झावयित्वा आमिष्ट ३, ४, ५; ४;  
 वौषि ३, १०, १; गौषि.  
 झाव्यमान- -नम् वैताश्रौ ३०, २.  
 प्लुत<sup>१</sup>- -त्तः आश्रौ ७, ११, १३;  
 शांश्रौ १, १, १९; ऋप्रा; पा ८,  
 २, ८२; -त्तम् ऋप्रा ९, ३२;  
 उस् १, ११; शुप्रा; -ताः हिश्रौ  
 २१, २, ३४; शुप्रा ८, ३५;  
 -तानाम् अश्रा १, १, ५; पावा  
 ८, ३, ४१; -तानि शौच १,  
 १०५; -तेन शांश्रौ १, १, ४२;  
 -तैः ऋप्रा ७, ३३; -तौ पा ८,  
 २, १०६; पाप्रवा ४, १२.  
 प्लुत-कार्य-प्रतिषेधा(ध-अ)  
 र्थ- -र्थम् पावा ६, १, १२७.  
 प्लुत-पूर्व<sup>२</sup>- -र्वम् तैप्रा १, ४;  
 -र्वत्य पावा ६, १, ७६.  
 प्लुत-प्रकृतिभाव-वचन- -नम्  
 पावा ६, १, १२३.  
 प्लुत-प्रगृह्य- -ह्याः पा ६, १,  
 १२५; -ह्येषु पावा ६, १, १२३.  
 प्लुत-प्रग्रह- -हौ तैप्रा १०, २४.  
 प्लुत-प्रतिषेध- -धे पावा ६, १,  
 २७.  
 प्लुत-प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा ८, २,  
 ८६.  
 प्लुत-वचन- -नम् पावा ८, २,  
 १०६.  
 प्लुत-वर्जम् शुप्रा ७, २.  
 प्लुत-विकार- -रे पावा ८, २,

१०७.  
 प्लुत-विधान- -ने पावा ८, २,  
 ८६.  
 प्लुत-संज्ञा- -ज्ञा पाप्रवा ४, २.  
 प्लुत-स्वर- -रत्य शौच ४, ६.  
 प्लुता(त-अ)कारा(र-अ)न्त<sup>३</sup>-  
 -न्तम् ऋप्रा ५, ५८.  
 प्लुता(त-आ)दि- -दि ऋप्रा  
 १०, ७; ११, १०; २५; -दिः  
 आश्रौ ५, ९, ६; शांश्रौ १, २, २;  
 उस् ४, ९; -दीनि ऋप्रा १०, ३.  
 प्लुतादि-प्रभृति- -तीनि  
 ऋप्रा १०, ४.  
 प्लुतो(त-उ)प(ध>)धा<sup>४</sup>- -धा  
 ऋप्रा २, ६६.  
 प्लुतोपधा ( धा-अन्त > )  
 न्ता<sup>५</sup>- -न्ताः ऋप्रा २, ६७.  
 प्लुतो(त-उ)पाचरित- -ते ऋप्रा  
 १०, २०; ११, ३८.  
 प्लुति- -तयः आश्रौ २, १९,  
 २०; -तिः शांश्रौ १, २, ३;  
 वैताश्रौ ३२, १५; ऋप्रा.  
 प्लुत्व(ति-अ)र्थ- -र्थम् पावा ८,  
 २, ८५.  
 प्लुत्या(ति-आ)दि- -दयः  
 पाप्रवा २, ४; -दिषु पाप्रवा ४, २.  
 प्लुति<sup>६</sup>- -तिम् अप ४३, ३, १४१.  
 √प्लुप् पाधा. भ्वा. दिवा. पर. दाहे;  
 ऋया. पर. ल्नेहनसेवनपूरणेषु.  
 प्लुक्षि- पाठ ३, १५५.  
 √प्लेव् पाधा. भ्वा. आत्म. सेवने.  
 √प्ला<sup>७</sup> पाधा. अद्वा. पर. भक्षणे,  
 प्लाति अप ४८, १५; निघ २,

१४.  
 प्लान->प्लानीय- -यः वा ५,  
 १४.  
 प्लु<sup>१६</sup>- प्लुः निघ ३, ७१.  
 फ  
 फ<sup>१७</sup>->फ-स्वर्ण- -र्णम् याशि २, ३८.  
 √फक् पाधा. भ्वा. पर. नीर्विर्गतौ.  
 फट्, ल्<sup>१८</sup> शांश्रौ १२, २३, २१; आपश्रौ  
 १२, ११, १०१; हिश्रौ ८, ३,  
 ३११; १०, ७, १६; ऋषौ ४७,  
 २१; ११६, ७; ऋप्रा ३६, १, ४;  
 ९, ३; पाग १, ४, ५७.  
 फट्-कार- -रः अप ३१, ९, १; ३४,  
 १, ६; ३६, २, ५; -रम् अप ४०,  
 २, ८,  
 फट्कार-प्रभृति- -ति अप्राय  
 ६, ६.  
 √फण्( वधा.)<sup>१९</sup> पाधा. भ्वा. पर. गतौ-  
 फणति निघ २, १४१.  
 फणयेत् द्राष्ट ३, १, ६१; फण,  
 येयुः लाश्रौ १०, ४, १०<sup>११३</sup>.  
 फण, णा<sup>२०</sup>- -णेन कौष्ट ४, २, ३;  
 शांष्ट ४, १५, ७.  
 फणा-भृत्<sup>२१</sup>- -भृतः अप ६४,  
 ८, ८.  
 फणित्- -णिनाम् सु २८, ११<sup>२०</sup>.  
 फागित<sup>२२</sup>- -तम् अशां १३, ३;  
 -तेन अप १, ४८, ६.  
 फाणित-प्रथुक-तण्डुल-करन्व-भरन्  
 ज-सक्तु-शाक-मांस-पिष्ट-क्षीर-वि-  
 कारौ(र-अ)पधि-वनस्पति-मूल-  
 फल-वर्जम् अपाघ १, १७, १९.

a) पारिभाषिक-संज्ञा- । b) वत्त. । c) क्त. > वत्त. । d) = ऋषि-विशेष- । e) तु. BEG. ।  
 f) तु. वैप १, २२५६ u । g) ह्यप-नामन्- । व्यु. ? । < √स्फुर इति दे. । h) = वर्य- । i) शांश्रौ. पाठः ।  
 j) वैप १ द्र. । k) वा २, २८ पा ६, ४, १२५ पराभृत्: द्र. । l) धा. कथने वृत्तिः । m) प्लेयुः इति पाठः ?  
 यनि. शोधः ( तु. भाष्यम् ) । n) नाप. । कर्त्तरि अच् प्र. । o) णी० इति पाठः ? यनि. शोधः ।  
 p) = इक्षु-विकार- ( नभा. राव इति ) ।



फाण्ट<sup>a</sup> - पा ७, २, १८; -ण्टम्  
जैगृ १, ११ : ५<sup>b</sup>; कौसू २५,  
१८; -ण्टान् कौसू २८, १४;  
-ण्टौ कौसू ४०, १५.

१फाण्टा (रट-आ) हत<sup>c</sup> - >  
हति-त्तेः पावा ४, १, १५०.

२फाण्टाहत-हतायति-

पा ४, १, १५०.

फण्ड-पाठवृ १, ११४.

फनक<sup>d</sup> -कः अप ५२, ५, ३.

फर्करक (>की-पा.) पाग ४, १,  
४१.

फर्फरीक-पाठ ४, २०.

✓फल<sup>e</sup>, पाथा.म्वा. पर.निष्पत्तौ, विशा-  
रणे, फलते वाध ६, ७<sup>३</sup>; फलति  
अप ७०, १०, १; फलन्ति वौश्रौ  
१७, ३१, १४<sup>३</sup>; अप ६४, १०, ६;  
७०<sup>३</sup>, ६, १.

फल<sup>f</sup> - पाग १, ४, ६१<sup>६</sup>; २, ४, ३१;  
४, २, ८०; ९०; ५, २, ३६; १३६<sup>h</sup>;

-लम् आपश्रौ २२, २, ५; काश्रौ  
१३, ४, १२; हिश्रौ; हिष १, २, ७; २,  
५, १६५<sup>१</sup>; या १४, ७; ३२;

मीसू ४, ३, ३<sup>j</sup>; -लस्य मीसू  
१, २, १७; २, २, २५; ६, ३,  
२१; -लाव वैध २, ५, ५; वृदे  
८, १३४; पावा ४, १, ६४;

-लानाम् आपश्रौ ६, ३१, ७;  
वौश्रौ २८, १३ : १७; वागृ १५,  
२०; गोगृ १, ९, ७; -लानि  
शांश्रौ २, ३, २६; हिश्रौ; या ९,  
८; -लाभ्याम् जैगृ १, ५ : ५;

-लाय अप ५८, १, ५; -ले अप  
६४, ८, ७xx; या ५, १२; पा ४,  
३, १६१; -लेन वाध ६, ३९;

मीसू ३, ४, २४; -लेभ्यः भाशि  
५८; -लेषु विध ९९, १६; -लैः  
वौश्रौ २८, १३ : २२; आमिगृ;

फल-कर्तृ-संबन्ध- -न्धात् मीसू  
११, ४, १८.

फल-कर्म-देश-काल-द्रव्य-देवता-  
गुण-सामान्य- -न्ये काश्रौ १,  
७, ३.

फल-काम- -सः मीसू ६, २, १०.

फल-खादिन्<sup>k</sup> - -दिनः वैध १,  
८, १<sup>l</sup>.

फल-ग्रहि<sup>m</sup> - -हयः आपश्रौ १६,  
२०, ४; हिश्रौ ११, ६, ५०; -हिः  
आपश्रौ १०, १०, ४xx; भाश्रौ;

-हेः वाश्रौ २, १, १, ४.

फल-ग्रहिण्यु - -ण्युः शांश्रौ १७,  
१, १८.

फल-चमस<sup>n</sup> - -सः मीसू ३, ५,  
४८.

फलचमस-विधान- -नात्  
मीसू १२, ४, ४४.

फल-तस्<sup>o</sup> (ः) कौसू २५, १७;  
आपध २, २२, ५; २३, २; हिध  
२, ५, १५७.

फल-द् - -दम् विध ३०, २९;  
आज्यो ७, ६; -दानाम् विध  
५०, ४८; -दौ कौसि ४१.

फल-दर्शन- -नात् मीसू ६, ३,  
२५.

फल-देवता- -तयोः मीसू ९, १, ४.

फल-नियम-कर्तृ-समुदाय-  
-यस्य मीसू ८, १, २०.

फल-निर्वृत्ति- -न्तिः काश्रौ १,  
२, १८; -न्तेः मीसू २, १, २७<sup>m</sup>.

फल-परिवृद्धि- -द्धिः आपध २,  
२, ४०.

फल-पर्वन्- -र्वणोः पावा ४, ३,  
१६.

फल-पाक-शुष्- -शुषाम् पावा  
४, ३, १६६.

फल-पातन- -ने वाध २८, ८;  
विध २३, ४९.

फल-पुष्प- -प्पम् अप ७०<sup>३</sup>, ६,  
१; ७, ४; ८, २; -प्पयोः अप  
७०<sup>३</sup>, ४, ५; ७, २३; -प्पाणि  
अप ७०<sup>३</sup>, ४, ३; -प्पेभ्यः शंघ  
२१९.

फलपुष्प-ता- -ता अप ७०<sup>३</sup>,  
८, २.

फलपुष्प-दा- -दाः अप ७१,  
१५, २.

फलपुष्पो(ष्य-उ)द्धव-  
-वानाम् विध ५०, ४९.

फल-पूर्ण- -र्णम् अप २०, ३, ४.

फल-प्रचयन- >नो( न-उ)द-  
पानावेक्षण-वर्षतिधावनो(न-उ)  
पानस्त्वयंहरण- -णानि द्रागृ ३,  
१, ३९.

फल-प्रद,दा- -दम् शंघ ४११;  
-दा विध ३०, ३९; -दे अशां  
६, ५.

a) = कपाय-भेद- । वैप २, ३खं. द्र. । b) ँभिस्फा इति पाठः? ँभिः फा इति शोधः (तु. संस्कृत्युः  
टि., द्रागृ ३, १, ६ च) । c) व्यप. । व्यु. ? । = गोत्र-विशेष- इति वापाभा. । d) = ग्रह-विशेष- । e) पा ७,  
४, ८७; ८८ पावा ६, ४, १२० परामृष्टः द्र. । f) वैप १ द्र. । g) फल- इति पाका. । h) तु. पागम. ।  
i) शोधः पृ १३९ j द्र. । j) तु. जीसं. । k) = वानप्रस्थ-विशेष- । l) शैलफलखा इति C.,  
अफलखा इति भाष्यम् (तु. C.) । m) मलो. कस. । n) ँन्तिः इति जीसं. । o) सप्र. फलपरिवृद्धिः  
<> फलवृद्धिः इति पाभे. ।

फल-प्रदर्शन- नम् वृद्धे ३, १५१.

फल-भक्ष- -क्षः हिश्रौ १७, १, १३; जैष्ठ २, ८: २४; बौध ३, ९, १७; -क्षा: बौध ३, ३, ३.

फल-भक्ष-ता- -ता वाच २२, ११; बौध ३, १०, १२; गौष १९, १४.

फल-भाक्ष- -भाक् क्रम २, ४, १८.

फल-भूमन्- -न्ना मीत् ११, १, २९.

फल-भूयस्त्व- -स्त्वम् आगृ ४, ७, ३.

फल-भेद-तत्त्व (:) अप २७, २, ५.

फल-भय- -यानाम् वाच ३, ५४; बौध १, ५, ३१.

फल-मिश्र- -आणाम् नागृ १, १४, ९.

फल-मूल-पुष्प- -प्पम् अप १, ६, ३.

फल-मूल-शाक- -कम् वैध २, ४, ५.

फल-मूला(ल-अ)शन- -नैः विघ ५१, ७७.

फल-युक्त- -कानाम् काश्रौ १, २, १०; -कानि काश्रौ १, १, २.

फल-योग- -गात् काश्रौ १, ६, ९; ७, १९.

फल-वत्- पा ५, २, १३६; -वत् अप २१, १, १; मीत् ३, २, २२;

४, ४, ७; -वतः कौष्ठ १, ९, ७; ३, १, ९; शांठ १, १५, ६; ३, १, १५; नागृ १, ७, ९; -वता मीत् ३, २, २२; -वद्भिः अप २१, ४,

१; -वन्तः अप ७१, १५, १; आज्यो २, १०; -वन्ति वापघ १, १, ६; ४, २९; हिघ १, १, ६;

१४८; आज्यो ४, १३; -वात् बौष्ट १, ८, ३.

फलवती- -ती नागि २, ८, २८; -तीः आगृ २, ६, ९;

-तीन् गोष्ट ३, ९, ४; -तीषु आपश्रौ १६, ३, १४; वैश्रौ १८, १: ५६; हिश्रौ ११, १, ४१.

फलवत्-ता- -तान् मीत् ६, १, २१.

फलवत्-त्व- -त्वम् मीत् ४, ४, ३४; -त्वात् बौध २, ९, १४२.

फल-वन्त- -न्तः बौष्ट १, ८, ३.

फल-विशेष- -यः काश्रौ १, १०, ११; आपघ १, ३०, ५×५; हिघ. फल-वृक्ष- -क्षाणाम् अप ६८, २, १५.

फलवृक्ष-शाखा- -खया द्रागृ २, २, २५.

फल-वृद्धि- -द्धिः हिघ २, १, २६.

फल-शातन- -ने बौध १, ५, ४९.

फल-श्रुति- -तिः मीत् ३, ७, ९; ४, ३, १; -तेः भागृ ३, १८: २, मीत् २, २, २५.

फल-स- पा ४, २, ८०.

फल-संयुक्त- -कैषु काश्रौ १, ५, १६.

फल-संयोग- -नाः मीत् ४, ३, ३६; -गात् मीत् ३, ७, ६.

फल-समवाय- -वाव मीत् ६, ३, २१.

फल-संभव- -वानाम् विघ २३, २८.

फल-सिद्ध-त्व- -त्वात् मीत् ३, ८, ९१.

फल-सेना-वनस्तति-वृग-शकुन्त- सुद्रवन्तु-धान्य-वृण- -गानाम् पात्रा २, ४, १२.

फल-स्तान- -नम् अप १९, ४, ३.

फल-हरितधान्य-शाका(क-आ) दान- -ने गौष १२, १५.

फला(ल-आ)दि- -द्दीनि अप ३०, २, ५.

फला(ल-अ)धिकार- -रात् काश्रौ १०, ५, १२; २०, ८, २६.

फला(ल-अ)नुपरोध- -धेन द्रागृ २, १७, ६.

फला(ल-अ)न्यत्व- -त्वम् मीत् ११, १, ५; ३२.

फला(ल-अ)न्वित- -नैः काश्रौ २, ३, ३: ९.

फला(ल-अ)रहारिद्- -ती शंभ ३७८.

फला(ल-अ)कल- > फलक- > लिका<sup>f</sup>- पात्रा, पात्राग २, १, ६९.

फला(ल-अ)नाव- -वाव मीत् १, २, ३; ११, १, १२; -वै कापघ २, २८, ९; हिघ २, ६, १.

फला(ल-अ)रम्म-निर्वृति- -तेः मीत् ११, १, ३२.

फला(ल-अ)र्थ- -र्थे कापघ १, २०, ३; हिघ १, ६, १७; -र्थेन मीत् २, ३, २६.

फला(ल-अ)न्व- -त्वात् मीत् ३,

a) विप., नाप. (ज्ञानप्रस्थ- [पवनानक-]) । b) तु. वैप १, २४०२. i । c) मलो. कस. । d) पात्रे.

दृ १७८३ p ३. । e) विप. > नाप. (पात्र-). । f) 'नित्तिदि' इति जी. । g) तु. पात्रा. । h) फलस्या<sup>g</sup> इति जी. प्र. । i) मलो. कस. वा पस. वा ।

१,४; ६,१,४.

फलार्थिन्- > ०र्थि-त्व-

-त्वात् काश्रौ १, २, १०; मीसू ६,१,२०; २,१५.

फला(ल-अ)र्थवाद्- -दम् मीसू ४,३,१५.

फलां (ल-आ)त्रली-समुद्भूत-वनसंघ-समाचित- -तम् विघ १,३९.

फला(ल-अ)शिन्- -शी विघ २५,८.

फला(ल-अ)श्रुति- -ते: काश्रौ १३,४,११; मीसू ४,३,९.

फला(ल-आ)हार- -र: अप ५, ३,३; ३१,७,२.

फलित- पा ५,२,३६.

फलिन्- पा ५,२,१३६; -लिन: अप ५७,३,४; -ली अप ७०<sup>२</sup>, ८,१.

†फलिनी- नी कौट १, १४,८; शांठ १, २२, १०; पाट १,१५,६; याशि २,११२.

फलिन- पावा ५,२,१२२.

फलीय- पा ४,२,९०.

†फले-ग्रहि- पा ३, २, २६; -हि: शांश्रौ १५,१९,१.

फले-पाक,का-, °पाकृ- पाग ७, ३,५३.

फले(ल-ए)कत्व- -त्वात् मीसू ११,२,२२.

फलो(ल-उ)त्तम- -मै: कौट १, ७,१<sup>b</sup>.

फलो(ल-उ)त्तर- -रै: काट २०, २; २१,१<sup>b</sup>; ३६,१.

फलो(ल-उ)त्साहा (ह-अ) विशेष- -वात् मीसू ६, १, १४.

१फलो(ल-उ)दक<sup>a</sup>- -कैः वौट ३, ९, ९; भाट ३, ११ : १०; हिट २,२०,७.

२फलो(ल-उ)दक<sup>c</sup>- -कम् आम्रिण २,७,१० : १४.

फलो(ल-उ)पगम- -हुम- -च्छेदिन्<sup>d</sup>- -दी विघ ५, ४५.

फलो(ल-उ)पदेश- -शः मीसू ४,२,२४.

फलक<sup>e</sup>- पाग २,४,३१; ४,२, ८०<sup>f</sup>; -कम् शांश्रौ १७,१०,४; वाश्रौ ३,२,५,५३; -कयो: काश्रौ २०, २,२०; वौश्रौ ६,२८ : ४३××; वैश्रौ; -कानि शांश्रौ १७,१, ९; अप १,९,१०; आपशु १९, १०; हिशु ६, ३०; -के काश्रौ ७, ९, ४; आपश्रौ २१, १७, १४; -कैषु वौश्रौ १०,१७ : ६.

फलक-पुर- पा ६,२,१०१.

फलका(क-अ)भिस्ती(री) > )र्णा<sup>g</sup>- -र्णा वौश्रौ १०,१२ : ६<sup>h</sup>।

फलका(क-आ)स्तीर्ण,र्णा<sup>g</sup>- -र्णः काश्रौ २२,४, १६; आपश्रौ २२, ५,५; हिश्रौ १७,२, ३३; लाश्रौ ८, ६, ९; -र्णा<sup>h</sup> आपश्रौ १६,

१०, १६; वाश्रौ २, १, ३, ४; वैश्रौ १८,६ : ६; हिश्रौ ११,३, ३८.

फलकिन्- पा ४,२,८०.

फलका- फलक- टि. द.

फलादि- प्रमृ. ✓फल द.

फलि<sup>i</sup>- (> फालेय- पा.) पाग ४,१, १३६.

†फलिग<sup>k</sup>- ना: निघ १, १०; -गम् आपमं २,२२,३<sup>l</sup>.

†फलिङ्गु<sup>m</sup>- -ङ्गवे आम्रिण १,२,२ : २८; वौट ३,९,६; भाट ३,११ : १.

फलित- प्रमृ. ✓फल द.

फली पाग १, ४, ६१ > फली ✓कृ<sup>n</sup> पा १, ४, ६१; फलीकरोति काश्रौ २, ४, २२; ४, १, ५; आपश्रौ. फली-करण<sup>o</sup>- -गा: अत्र ११, ३३; -णात्<sup>p</sup> भाश्रौ ५, १४, ५; ८, १, २०; ५, १२; १५, १७; -णान् आपश्रौ ३, १०, १; वौश्रौ १, २० : २३; भाश्रौ; -णानाम् शांश्रौ २३, ३, ५; गोश्रु १, ४, ३०; द्राश्रु १, ५, ३२<sup>q</sup>; -णानि भाश्रौ १, ३, ५, १२; वाश्रौ १, ३, ७, १२; -णै: कौसू ४३, २.

फलीकरण-तुप-तुसा(स-अ) वतक्षण- -णानि कौसू १४, १५; ४२, २१.

फलीकरण-मिश्र- -आन् पाट १, १६, २३; आपश्रु १५, ६; काट. फलीकरण-मुष्टि- -ष्टिम्

a) मलो. कस. । b) सर्वसुरभिमिश्रैः फलोत्तमैः इत्यस्य स्थाने सपा. शांठ १,११,२ सर्वौपधिफलोत्तमैः सुरभिमिश्रैः इति, काट २१,१ सर्वगन्धैः फलोत्तैः इति च पाठे. । c) समाहारे द्वस. । d) वस. > कस. > उस. । e) वप्रा. । नाप. । व्यु. ? < ✓फल इति अभा., < फल- इति शक. । f) तु. पागम. । °का- इति भाण्डा., हलका- इत्यपि [पक्षे] भाण्डा. । g) तुस. (तु. सा [तां १७, १, १४]) । h) सप्र. °काभिस्तीर्णा <> °कास्तीर्णा इति पाठे. । i) पृ ११८९ सस्य. लीर्णा इति नेष्टम् । j) व्यप. । व्यु. ? । k) वैप १ द. । l) अर्थः ? । सपा. हिट १, १४, ७ शेफमलीकम् इति, भाट २, २८ : ३ परिघम् इति च पाठे. । m) माप. ।

आपृ २३, १; भाग २, २६: १०.

फलीकरण-होम- सः वौश्रौ २४, २९: १३; -सम् आपृ ३, १०, १; वौश्रौ १, २०: २३; वाघृश्रौ ३, ४१: १५; ४, ३: ४; -सस्य वौश्रौ २०, ३१: ११; -मे आपृ ४, १३, ७; भाश्रौ ४, १९, ७; हिश्रौ ६, ४, ३; -मेन वौश्रौ ४, १०: २०; ६, ३: १९; २५, ६: १०.

फलीकरणहोम-प्रभृति-  
-ति वौगृ २, १, २०.

फलीकरणा(ख-अ)न्त<sup>०</sup>-  
-न्तम् भाश्रौ १, ६, ४, ९.  
फली-कर्तव्य आपृ १, २०, ११; वौश्रौ १, ६: २७; भाश्रौ १, २२, ९; वैश्रौ ४, ७: १५; हिश्रौ १, ५, ७१.

फली-कृत- तान् शाश्रौ ४, ३, ७; आपृश्रौ; -तानाम् भाश्रौ ५, १४, ६; ८, १, २१; वाश्रौ; -तेषु वौश्रौ १, ७: १; वैश्रौ.  
फली-कृत्य काश्रौ २, ४, २३; वैश्रौ.  
फली-क्रियमाण- णानाम् आपृश्रौ १, २२, २; वौश्रौ १, ६: २८; भाश्रौ.

फलीय- ✓फल् द्र.

फलू (> °ल. ✓कृ पा.) फल- टि. द्र.

फले-ग्रहि- प्रभृ. ✓फल् द्र.

✓फ(ल्) > ल्ग (वधा.) > फल्गु<sup>०</sup>-

पाठ १, १८; -ल्यु अप १, ९, ९०.  
फल्गु-तीर्थ<sup>०</sup>- ये विघ ८५, २२.  
फल्गु-पात्र<sup>०</sup>- त्राणि विघ ७२, २२; -त्रेण विघ ७२, २४.

१फल्गुन- पाठ ३, ५६.

१फल्गुनी<sup>१</sup>- पाठभो २, २, २०२;  
-नी वौगृ १, १, २०; भागृ २, १८: ६; तैप्रा ४, १२<sup>क</sup>; -नीभ्याम् भाश्रौ ५, २, ७; वांगृ १, २६, ९; १०; आपृ ३, २<sup>क</sup>; भागृ १, १२: १७<sup>क</sup>; वैगृ ३, २०: ५; ६; अशां २२, २; -नीषु आश्रौ २, १, १०; कौसू ७५, ५<sup>क</sup> १३९, १४; अप १, ७, १; २; -न्यः माश्रौ १, ५, १, ५; अप १, २, १; -न्योः आपृश्रौ ५, ३, ८; वौश्रौ २, १२: १३<sup>क</sup> x x; भाश्रौ; -न्यौ हिश्रौ ३, २, ४<sup>३</sup>; अप १, १, २ x x; अशां ८, ५.

१फाल्गुन-

१फाल्गुनी<sup>१</sup>- नी अप १, १, २; -नीभिः आगृ २, १०, ३<sup>क</sup>; -नीम् अशां २, ५; -न्यौ अप १, २, १; ३३, ११.

२फाल्गुनी<sup>१</sup>- नी

आपृश्रौ ८, २१, ४; वाघृश्रौ ३, ६९: ३०; हिश्रौ ५, ६, ६; विघ ९०, ७; गौघ १६, ३७; -न्याः आश्रौ ९, ३, २; आपृश्रौ; -न्याम् आश्रौ २, १४, ३; शाश्रौ ३, ८, १ x x; काश्रौ; -न्यै वौश्रौ १२, १: १ x x; वाघृश्रौ ३, ६९: २.

फाल्गुनी-पक्ष- क्षस्य लाश्रौ ९, १, २.

फाल्गुनीपक्ष-यज नीय- ये काश्रौ १५, ३, ३५.

फाल्गुनी-प्रयोग<sup>०</sup>-

गस्य शाश्रौ ३, १४-१५, १.

फाल्गुनी-शुक्ल-  
-न्लस्य काश्रौ २०, १, २.

फाल्गुनी-समापन<sup>०</sup>-  
-तान् वाश्रौ १, ७, ५, ९.

फाल्गुन्यु(नी-उ) द्र-  
ष्ट<sup>०</sup>- ष्टे काश्रौ ५, ११, १६.

फाल्गुन्यु(नी-उ)पव-  
सय<sup>०</sup>- ये काश्रौ ५, ११, १८.

२फाल्गुन<sup>०</sup>- पा ४, २, २३; -नस्य शाश्रौ १३, १९, ४; -ने वौगृ २, ११, ३.

फाल्गुना(न-आ)  
दि- दि आश्रौ ८, १४, २१.

फाल्गुना(न-आ)  
रम्भण<sup>०</sup>- णान् वाश्रौ १, ७, ५, ९<sup>३</sup>

फाल्गुना(न-आ)  
पाठ-कार्तिक-पूर्वपक्ष- क्षेषु अप २०, १, २.

फाल्गुना(न-अ)  
ष्टमी- न्याम् कप्र २, ७, २३.

फाल्गुनिक- पा ४, २, २३; -कस्य काश्रौ सं २९: १४<sup>०</sup>.

२फल्गुन- पा ४, ३, ३४.

२फल्गुनी-पात्रा ४, ३, ३४

फल्गुनी-द्वितय- चस्य अशां ६, १.

फल्गुनी-पूर्णमास<sup>०</sup>- से आपृश्रौ ५, ३, १६<sup>३</sup>.

फल्गुनी-प्रभृति- नीनि शाश्रौ २, १, ९.

फल्गुनी-प्रोक्षपदा- ज्ञानाम् पा १, २, ६०.

a) वस. । b) वैप १ द्र. । c) = पूर्वा-फल्गुनी- (नक्षत्र-). । d) = तीर्थ-विशेष- । e) पूष. = दृक्-विशेष- । f) वैप १, २२५८ k द्र. । g) पाभे. वैप १, २२५८ l द्र. । h) पाभे. वैप १, २२५८ n द्र. । z) ण्योः इति पाठः? यनि. शोघः । j) स्तार्थे ङण् प्र. । k) फ इति आन. । l) = पूर्णिमास- । m) = नास-विशेष- । n) पाठः? ण्युन्या इति शोघः (तु. प्रकरणम्) । o) विप. (पुन-). । p) वस. उप. = चन्द्र-दर्शन- (फाल्गुनशुक्लप्रतिपद्-). । वस. । q) वस. उप. = प्राक्कालीनाऽहन्- (फाल्गुनशुक्लचतुर्दशी-). ।

फल्गुनी-यु(त>)ता- -ता

विध ९०,७.

फ-सवर्ण- फ-द्र.

फाणित-, फाण्ट- प्रभृ. ✓फण् द्र.

१-फाल<sup>३</sup>- -लम् पाठ २, १३, ४; काठ ७१, ४; कौसू २०, ५<sup>३</sup>फं; अशां १९, ८; -फालाः<sup>३</sup> आश्रौ २, २०, ४; शांश्रौ; -लेन कौसू २४, २; ३३, ९; वौध ३, २, ३.

फाल-कृष्ट, टा<sup>३</sup>- -ष्टम् वाध ९, ३; वौध २, ६, १७; गौध ३, ३२; -घायाम् विध ६०, ४; -ष्टे अप १०, १, २१.

फाल-चमस<sup>३</sup>- -से कौसू ३५, ४.

फाला(ल-आ)कृ(घ>)घा- -घाभिः आमिगृ २, ७, १० : ७.

२-फाल<sup>३</sup>->फाली- पागम ५८.

फालि- पाठभो २, १, १६६.

फाली > फाली ✓कृ > फाली-

करण<sup>३</sup>- -?णान् शांश्रौ १३, ३, ५.

फालेय- फलि- द्र.

१-२-फाल्युन- ✓\*फल्गु द्र.

३-फाल्युन<sup>३</sup>- -नानि आश्रौ ६, ८, ५; १२; आपश्रौ १४, २४, १२; वौश्रौ १४, २९ : १७; १८; २४, १, १६; हिश्रौ १५, ६, १५<sup>३</sup>.

?फाल्युन-पा(च>)ची<sup>३</sup>- -चीभ्याम् वौश्रौ १८, ९; २३; -च्यौ वौश्रौ १८, ८ : ७.

फाल्युनिक-, णी- प्रभृ. ✓\*फल्गु द्र.

✓फुल् (= ✓फल्) > फुल्ल- पा ८, २, २५.

फौलि<sup>३</sup>- पावा ८, २, ४२.

फुल्लवत्- पा ८, २, ५५.

✓फुल् पाधा. तुदा. पर. संचलने.

✓फुल्ल<sup>३</sup> पाधा. भ्वा. पर. विकसने.

फुल्ल- ✓फल् द्र.

फेन<sup>३</sup>- पाठ ३, ३; पाग ३, १, १२<sup>३</sup>; १३ ५, २, १७<sup>३</sup>; १००<sup>३</sup>; -नः लाश्रौ ८, ३, १४; -नम् काश्रौ १६, ३, १६; आमिगृ ३, २, २ : ६; -नाम् कौसू ४६, २, ८<sup>३</sup>; -नेन साश्र १, २११<sup>३</sup>; भाशि ५८<sup>३</sup>; याशि २, ६५<sup>३</sup>; -नेषु कौसू ४६, २, ८.

फेन-प<sup>३</sup>- -पः वैध १, ७, २; ८.

फेन-प्र(ख्या>)ख्य<sup>३</sup>- -ख्यः कप्र ३, ३, ६.

फेन-वुद्वुद- -वैः शंघ ६१.

फेन-ल-, फेन-वत्- पा ५, २, ९७; ९९.

✓फेनाय पा, पावा ३, १, १२; १३.

फेनिल- पा ५, २, ९९; १००.

✓फेल् पाधा. भ्वा. पर. गतौ.

फौलि- ✓फल् > फुल्ल- द्र.

व

व<sup>३</sup>->व-कार- -रः दंवि २, ११; -रे दंवि १, २.

✓वंह > वंह > वंहिष्ट<sup>३</sup>- पा ६, ४, १५७; फि ७; -ष्टः निघ ३, ३<sup>३</sup>; -फंष्टम् आश्रौ २ १४, ११; ३, ८, १; शांश्रौ ८, १२, ८.

१-वक<sup>३</sup>- (> वाकायन-पा.) पाग ४, १,

९९.

२-वक<sup>३</sup>- -कः मागृ २, १४, २९.

३-वक<sup>३</sup>- फि १४; -कः आमिगृ २, ५, २ : १; विध ४४, ३५; -कम् शंघ ४२६; -काः अप ७०<sup>३</sup>, ६, ४; -कानाम् वौगृ १, ८ : ८; -कैः अप ७०<sup>३</sup>, ६, १०.

वक-बलाका-हंस-प्लव-चक्रवाक-कारण्डव-गुहचटक-कपोत-पारा-वत-पाण्डुशुक्र-सारिका-सारस-टिट्ठिभो(भ-उ)ल्लक-कङ्क-रक्तपाद-चाप-भास-वायस-कोकिल-शाङ्-वचलि-कुक्कुट-हारीत-भक्षण-गे शंघ ४२३.

वक-वत् अप ६४, ५, ३.

वक-व्रत- > व्रत-पर<sup>३</sup>- -रः विध ९३, ९.

वकव्रतिक- -कै विध ९३, ७.

वकव्रतिन्- -तिनः विध ९३, १०.

४-वक- (> वकीय-) नैवाकव- टि. द्र. वकनख<sup>३</sup>-> ख-गुदपरिणद्ध-, ख-श्चगुदप<sup>३</sup> पा, पाग २, ४, ६८.

वकसकथ<sup>३</sup>- पा, पाग २, ४, ६३.

वकुर<sup>३</sup>- -रः अप ४८, ११५<sup>३</sup>; निघ ४, ३<sup>३</sup>; या ६, २५<sup>३</sup>; -रेण या ६, २६<sup>३</sup>.

वकुल<sup>३</sup>- (> वल्लित-पा.) पाग ५, २, ३६.

वकोट- पाठभो २, २, ११२.

वज<sup>३</sup>- -जः दंवि २, ८<sup>३</sup>.

वज-पिङ्ग- -इयौ अशां २१, ४.

?वजावोजा<sup>३</sup>- -जा हिगृ २, ३, ७<sup>३</sup>.

a) वैप १ द्र. । b) पामे. वैप १, २२५८ t द्र. । c) मलो. कस. । d) = खण्ड- । व्यु. ? । e) = फलीकरण- । f) पाठः ? णान् इति C. (तु. k [शांश्रौ १८, १२ मूको. अनु.] । g) = तृण-विशेष- इति रुद्रदत्तः (तु. Pw. प्रभृ.), = श्रेयधि- इति नारायणः । h) विप. । अर्थः ? । पूष. = वृक्ष- इति सूची ? । i) व्यप. । j) ✓फुल् इति [पक्षे] BPG. । k) तु. पागम. । l) = [सपत्नीक-] वानप्रस्थ- । उप. < ✓पा [पाने] । m) वस. । n) = वर्ण-विशेष- । o) = देवता-विशेष- । p) = जलवर-विशेष- । q) पाका. पाठः । r) वकसकथ-, वकसस्य- इति पासि. । s) = पुष्प-विशेष- । व्यु. ? । t) नाप. (L [वालापहरणकृत्-] राक्षसी-) । व्यु. ? । \*स्वज- (वाल-) + अपभृ(त्य >) ल्या- > \*स्वजाऽपभृत्या- > नैप्र. यनि. इति कृत्वा तत्परः शोधः (तु. पृ ९६० i) ।

√वट् √वट् द्र.

वैवL, वीL, वीL, वीL आश्रौ ६, ५, २, ७, ३; १४, १८; ७, ४, ३; ९, ५, २; शाश्रौ ९, २८, १३; ११, १३, २७; ३०; १२, ९, १५; १३, ८, २; १८, २३, १४; काश्रौ २५, १३, ६; आपश्रौ ४, ४, ४; १३, ४, २; १२, ४; १८, १८, १०; १५, १०, ११<sup>०</sup>; १६, १७, १७; १७, १३, ६; वीश्रौ ९, ९; २४; १०; १९<sup>०</sup>; २१; १०, ५०; १४<sup>०</sup>; १३, २४; १२; १४, २५; २६; माश्रौ ११, १०, ११<sup>०</sup>; माश्रौ ६, २, ४, १७; १८; ५, ३, २<sup>०</sup>; वाश्रौ १, १, २, १६; २, २, २, २१; वैश्रौ १३, १२; १७<sup>०</sup>; १६, १४; १; ७; १८, १४; ३०; १२, ६; ६९; हिश्रौ ६, १, ५१; २, ३, ५०; ११, ६, २१; १२, ४, ७; १५, ५, १२; द्राश्रौ ८, २, ३, २; लाश्रौ ४, ६, २३; वैताश्रौ ३, ३, ६; १६; छसू १, १०; ८; आपसं २, १८, ९; सु २२, १; हिश्रु २, १७, ९; अप ४८, ७१; ऋश्रु २, १, १४१; ५, ६७; ८४; वृदे ५, ८८; शुश्रु ३, १९९; साश्रु २, २७६; अश्रु १३, २; २०, ५८; निच ३, १०; वा ११, ३७<sup>०</sup>; नाशि १४, ३; दंवि २, २; उनिस् ७; १४; १६; पाग १, ४, ५७.

वटव- पाठभो २, ३, १३५.

वठर<sup>०</sup>- पाग २, २, ३८.

वडमीकार- वडमीका- द्र.

वडवा- वडवा- द्र.

वडाL, ला<sup>०</sup> आश्रौ ६, ४, १०<sup>०</sup>.

√वल् पाषा. भ्वा. पर. शब्दे.

वण्ड, णडा<sup>०</sup>- पाठ १, ११४; -ण्डः

शाश्रौ १६, १८, १८; -ण्डाः

आपश्रौ २२, ४, २४; हिश्रौ १७, २, २८.

वण्ड-खलति- -त्ति शाश्रौ १७, ६, १.

वित<sup>०</sup> शाश्रौ १५, ५, १३; अत्र १८, १; वा ६, २७<sup>०</sup>; २८; दंवि २, ५; ङपाग १, १, ३७; ४, ५७.

वित<sup>०</sup>- -त्तः अत्र १८, १; निच ४, ३; वा ६, २८<sup>०</sup>; दंवि २, ५.

√वट् पाषा. भ्वा. पर. स्वैथे.

वदर<sup>०</sup>- पाग ४, १, ४१; ५, २, २४; ६, २, ८७; -रेण वैश्रु २, १४; ५; -रैः वैश्रौ ३, ८; ८; हिश्रौ १, ३, ५२.

वदरी- पाठभो २, ३, ३८; पा ४, १, ४१; पाग ६, २, ८५.

वदरी-शाखा- -त्ता क्रम ३, ९, १०.

वादर- -त्तः आपण ११, १६; आपष १, २, ३८; हिष १, १, ६९; -रम् वीश्रौ १७, ३९; ४; ४१; ५; आपण.

वादर-भणि- -गिन् आभिति १, ३, १; ४; ३; १८.

वदर-हण- पा ५, २, २४.

वदर-प्रत्य- पा ६, २, ८७.

वदर-सक्तु- -क्तुभिः आपश्रौ १९, २, १०; वीश्रौ १७, ३४; ११; नाश्रौ ५, २, ११, १६; वाश्रौ ३,

२, ७, २१; हिश्रौ १३, ८, २३<sup>०</sup>;

-क्त्वर वैश्रौ ११, ४; १.

वदर(र-आ)दि-कृत्-मि(श्र >)

आ- -आः लय ३०<sup>०</sup>, १, १७.

वदर<sup>०</sup>- पाग ४, १, ९९.

वादरायण- पा ४, १, ९९; -ः

हिश्रौ १६, ७, २३; २२, ५, २०;

हिश्रु १, २५, ४; नीस् ५, २; १९xx; -गत्य नीस् १, १, ५;

-णाः वीश्रौ २०; २.

वादरायणि<sup>०</sup>- -गिः अत्र ४, ३७<sup>०</sup>; ५, ५९; १०९.

वादि- -दिः वीश्रौ ४८; ७;

वीश्रु १, ४, ४४<sup>०</sup>; अप ३०<sup>०</sup>, १, ३;

नीस् ३, १, ३; ६, १, २७<sup>०</sup>; ३, ६; ९, २, ३३.

वद- √वष्, न्व् द्र.

वदक->वाङ्कि<sup>०</sup>- (> क्वात्- पा.) पाग २, ४, ६१.

वदक, वदवा, वदधान- √वष्, न्व् द्र.

वद<sup>०</sup>- -द्वम् वाश्रौ ३, २४; १३; १२<sup>०</sup>; १२<sup>०</sup>; छसू २, ९; २०;

-वैदानि वाश्रौ ३, २४; १३; दंवि २, ५<sup>०</sup>; -द्रे दंवि २, ५<sup>०</sup>.

वदन्<sup>०</sup>- -दा<sup>०</sup> द्राश्रौ १, १, २५; लाश्रौ १, १, २३.

√वष्, न्व् पाषा. भ्वा. आत्म., कर्वा. पर. वन्दते, वदति काश्रौ ७, ३, २२xx; वीश्रौ; वदति काश्रौ ४, २, १५; ८, १; आपश्रौ; वदतिः वैश्रौ १४, ६; १२; वदन्ति वाश्रौ १७, ३, ८xx;

a) भाश्रौ. नाश्रौ. वैश्रौ. शुश्रु. प्रभृ. पाठः । b) वैश्रु १ द्र. । c) ऋश्रु. पाठः । d) पामे. वैश्रु १, ८२५४ द. । हिश्रौ २४, ४, ९ वपट् इति विशेषः । e) वृ. पागम. । f) वद- इति भाष्या. पाका. । g) कृत्. पाठः । h) = विकृताङ्ग- । i) व्यप. । j) कित् प्र. उत्सं. (पा ४, १, १५४) । k) वैश्रु १, २२६० ० द. । l) वैश्रु २, ३८<sup>०</sup> द. । m) वरा. आपश्रौ १०, १, ५ प्रभृ. पट्टा इति पामे. ।

n) वा १०, ४ पा ३, १, ६; ४, ४१ पराच्युः द. ।

आपश्रौ; ऋवध्नामि आपश्रौ १९, २०, १५; वौश्रौ १३, २२ : ९; माश्रौ; अश्र १, ३५<sup>a</sup>; वध्नात् अश्र १९, ४६<sup>b</sup>; वध्ने वाधूश्रौ ४, ९ : २; ३; ऋवध्नात् आपश्रौ १०, २२, १००; वैश्रौ; ऋवध्नीष्व द्राश्रौ १०, २, ८; लाश्रौ ३, १०, ७; ऋवधान आपश्रौ २, १, ६; २०, ३, ४; काश्रौ; ऋवध्नीत<sup>d</sup> वौश्रौ १, २० : २८; आपमं १, ५, १७; ऋवध्नात् शांश्रौ १६, ९, १०; काश्रौ ३, ८, २; आपमं; ऋवध्नात् शांश्रौ १६, ९, १३<sup>e</sup>; अश्र १०, ९; अवधन् अश्र १, ३५; वध्नीत् वाधूश्रौ ३, १०१ : ४; आश्र ३, ८, १६; आमिश्र २, १, ३ : १९<sup>f</sup>; हिश्र २, ३, ७<sup>g</sup>; गोश्र ४, ९, ८; वध्नीयात् कौश्र ५, ३, २४; वैश्र २, ११:८x४, अप; वध्नीयुः लाश्रौ ९, ९, ५. वेधिषे दंवि २, २<sup>h</sup>; ऋवध्न्स्यामि आपश्रौ २०, ३, ३; काश्रौ २०, १, २५; वौश्रौ १५, ४ : १२; हिश्रौ १४, १, २७. वध्यते आपमं १, ६, ८<sup>i</sup>; अप ६८, ५, ४; वध्यन्ते आपश्रौ २४, २, २७; वाधूश्रौ ४, १३ : ४; ऋवध्यताम् वौश्र १, ५, १०; काश्र ३१, ४; वध्यन्ताम् आमिश्र ३, ८, २ : ७<sup>j</sup>. वन्धयति वैश्र २, ९ : ११; कौसू ६९, २; वन्धयामि वैश्र २, ११ : ७<sup>k</sup>; वन्धयेत् वैश्र ६, ३ : ३; आपध २, २७, १८.

वीभत्सन्ते काश्रौ २५, ५, २५; वाध ५, ९; वीभत्सेत् काश्रौ २५, ४, ९; वीभत्सेयाताम् द्राश्रौ ४, ४, २१; लाश्रौ २, ४, १२. वद्ध,द्धा- -द्धः आश्रौ ४, ११, ६; शांश्रौ १२, १६, १<sup>l</sup>; आपश्रौ; ऋया २, २८; १३, ७; -द्धम् आपश्रौ २०, ३, ६; वौश्रौ ६, २४ : १६; हिश्रौ; या १०, ३२<sup>m</sup>; -द्धा आपश्रौ १९, २७, ४; हिश्रौ २२, ६, १७; वौषि १, ३ : २; वृदे ७, १३५; -द्धाः वाधूश्रौ ४, १३ : ३; द्राश्रौ; या १०, ४४; -द्धान् आपश्रौ ६, २२, १; या ४, ३; -द्धानि सु २६, ४; -द्धाम् हिश्रौ ७, २, २३; वौषि १, ३ : २; हिषि १, २ : ९; -द्धाय आपश्रौ २०, ७, ८; हिश्रौ १४, २, २१; कौसू ५२, ४; -द्धे आश्र १, ७, १६. रवद्ध-क<sup>n</sup>- -कम् दंवि १, १२<sup>o</sup>. वद्ध-कौतुक,का<sup>p</sup>- -कः आमिश्र १, ६, १ : ८; -काम् आमिश्र १, ६, १ : ११. वद्ध-जिह्व<sup>q</sup>- -ह्वः माशि १५, २; पाशि २७; शैशि १६१; याशि १, २७; नाशि २, ८, १२. वद्ध-मेख(ला>)ल<sup>r</sup>- -लम् कौसू ५६, ८. वद्ध-व(त्स>)त्सा<sup>s</sup>- -त्साम् गोश्र ३, ६, ७. वद्ध-वीर<sup>t</sup>- -राः वौश्रौ १३, २२ : १०<sup>u</sup>. वद्ध-शि(खा>)ख<sup>v</sup>- -खः आमिश्र २, ६, १ : २; -खम्

वौश्र २, ५, ७; -खाः वौषि ३, ४, १७; -खेन कप्र १, १, ४. वद्ध-श्रोत्र<sup>w</sup>- -त्रः या १०, ४१. वद्ध-हित- -तयोः शुप्रा २, ४४. वद्धा-भक्षयति-नेय- -येषु पा ५, २, ९. वद्ध्वा आश्रौ ८, १४, १२; काश्रौ. ऋवद्धवान<sup>x</sup>- -नः शांश्रौ ६, ६, ६; -नान् या १०, ९; ऋप्रा ४, ६६. षवधिर<sup>y</sup>- पाठ १, ५१; पाग २, २, ३८; ५, १, १२३; -रः ऋआपश्रौ १२, ५, ६; १६, ८, १४; आमिश्र; या १०, ४१<sup>z</sup>; -रस्य या १०, ४१; नाशि २, ८, १७; -रा या १०, ४१<sup>z</sup>; -राः विध ४५, ३३. वाधिर्य- पा ५, १, १२३; -र्यम् वौश्रौ २, ५ : ६<sup>z</sup>. वधिर-ता-, वधिर-त्व-, वधिरि-मन्- पा ५, १, १२३. वधन्- -धन् आश्रौ ३, ६, १७; शांश्रौ ६, १, १६. वध्यत्- -ध्यतः कौसू १३७, १६<sup>z</sup>; वृदे ५, १३४. ऋवध्यमान- -नम् आपश्रौ ७, १५, ६; वौश्रौ ४, ६ : २४; माश्रौ; -नाः वौश्रौ ४, ६ : २४; वैश्रौ १०, १२ : ५; हिश्रौ ४, ३, ४३; -नान् माश्रौ ५, २, १३, १; -नौ माश्रौ ५, २, १३, १. वन्ध<sup>z</sup>- पाग ६, १, १६०; -न्धम् वैश्र ६, ११ : ३; अप ३६, २, ३; शुप्रा ३, १२९<sup>z</sup>; -न्धान् कौसू ३९, १५; -न्धानाम् सुध ५७<sup>z</sup>;

- a) पाभे. वैप १, ६६८ f द्र. | b) पाभे. वैप १, २२६० i द्र. | c) पाभे. वैप १, २२६० j द्र. | d) पाभे. वैप १, २२६० l द्र. | e) पाभे. वैप २, ३खं. अवध्नात् माश १३, ५, ४, २ टि. द्र. | f) पाभे. वैप २, ३खं. अवध्नात् माश १३, ५, ४, ४ टि. द्र. | g) पाभे. पृ १०००० o द्र. | h) वैप १ द्र. | i) वस. | j) पाठः? मध्यतः इति शोधः (तु. वैप १, २४२७ j) | k) पाभे. वैप १, १९७१ p द्र. | l) श्रुतितः पाठः |

-न्धे पा ६, ३, १३; -ऱन्धेषु  
आपमं १, ६, ८; काय ३१, ४;  
वौच १, ५, १०.

वन्धय- पाठभो २, २, १५८.

वन्धन<sup>a</sup>- नम् काश्रीस ३५ : १४;  
कौसू ८९, १०<sup>b</sup>; दंवि २, ७<sup>c</sup>;  
पा, पावा ५, २, ७९; -ऱनात्  
आपश्री ८, १८, ३; वौश्री; या  
१४, ३५<sup>d</sup>; -ने आमिग २, १,  
१ : १६<sup>e</sup>; हिग २, २, ७<sup>f</sup>; पा  
१, ४, ७८; ४, ४, ९६; -नेः भाग  
१, २२ : १७<sup>g</sup>.

वन्धन-पायना(न-आ)चमन-प्रदे-  
हन- नम् कौसू ३१, २६.

वन्धन-पायना(न-आ)चमन-

> न-शङ्कुघानज्वाल<sup>c</sup> -लेन  
कौसू २७, २९.

वन्धन-वध-क्लेश- शान् विध  
५१, ६९.

वन्धन-रक्षिन्<sup>d</sup>- -क्षिणः शंघ  
४३४.

वन्धन-स्य- -स्थाः अप १९<sup>e</sup>,  
५, ६.

वन्धना(न-आ)गार<sup>e</sup>- रम् विध  
६३, २३.

वन्धु<sup>f</sup>- पाठ १, १०; पाग ५, ४,  
३८; -न्धु जैग २, २ : ९<sup>f</sup>; दंवि २,  
१०<sup>g</sup>; -न्धुः काश्री ७, ६, १८<sup>h</sup>;  
आपश्री; ऱ्या ४, २१<sup>h</sup>; ६, ७;  
दंवि १, ८<sup>h</sup>; -न्धुनि पा ५, ४,  
९; ६, १, १४; २, १०९; -न्धुभिः  
विध २०, ३७; -न्धुम्यः वैग ३,  
१ : ८; -न्धुम् दंवि २, ५<sup>h</sup>;

-न्धू आपश्री १, ९, ६<sup>h</sup>;  
-न्धून् वाध १५, ६; १९, ३२;  
वौध; -ऱन्धोः आपश्री २४, ५,  
२; हिश्री २१, ३, २.

वान्धव- पा ५, ४, ३८; -वः  
माग १, ७, ६; ७; विध २०,  
३९; -वम् भाग १, ११ : १; ३;  
वाग १०, ५; विध १९, ६; -वाः  
आपश्री ९, ११, २३; आमिग;  
-वान् वैग ५, १ : ४; विध २०,  
३८; -वानाम् आमिग ३, ७, ४ :  
१; शंघ ४५५; विध २०, ३२;  
-वे भाग १, ११ : ३; वाग १०, ६;  
-वेन वृदे १, ७; -वैः वैग २,  
१७ : ३; ३, २ : १०; कप्र.

वान्धव-संनिधि- -धौ वैग  
६, २ : ९; १०; १४ : ४.

वन्धु-नामिन्- -मि विध १७,  
१०.

वन्धु-ज्ञान- -ने कागुड ३२ : १४.

वन्धु-ज्यानि- -निम् वैश्री १,  
१९ : २.

वन्धु-ता- पा ४, २, ४३.

वन्धु-दत्त- -त्तम् विध १७, १८.

वन्धु-दायाद- -दाः शंघ २९१.

वन्धु-नामन्- -म माश्री १, १,  
२, २२<sup>f</sup>; -मानि माश्री १, ९, १६.

वन्धु-पक्ष-क्षय- -यम् आज्यो  
७, १०.  
वन्धु-पति- (> वान्धुपत- पा.)  
पाग ४, १, ८४.  
वन्धु-परिक्लेश- -शम् आज्यो  
७, १०.

वन्धु-मत्- -मन्तः वाश्री ४,  
१८ : २४; २७; जैश्री १ : १२;  
-मन्तम् जैश्री १ : १३; कौसू  
५५, ११; १२; -मान् वाश्री  
४, १८ : २०; २१; ३१; हिश्री  
७, ३, २१.

वन्धुमती- -ती हिश्री ७,  
२, १६; -तीम् माग १, ७, ८;  
वाग १०, ८; -त्यः चात्र ४० : ६.  
वन्धु-मैत्री<sup>1</sup>- (> वान्धुमैत्रिक-  
पावा.) पावाग ४, ४, १.

वन्धु-शील-लक्षण-संपन्न, चा-  
-न्नम् आपग ३, १९; -हाम्  
आपग ३, १८.

वन्धु-शील-श्रुता(त-आ)रोग-  
-न्याणि आपघ २, ११, १७; हिघ  
२, ४, ३२.

वन्धु-संनिहृष्ट- -ष्टम् वाध १५,  
६.

वन्धुर<sup>1</sup>- पाठ १, ४१; -रम् दंवि  
२, ४<sup>h</sup>.

वन्ध्य- -न्ध्यः अप ३७, ९, १; अर्शा  
२५, १<sup>h</sup>.

वन्ध्यमान- -नान् या १०, ९.

वन्धीभत्स, त्सा<sup>h</sup>- -त्साः आपश्री  
१०, १४, १; वौश्री २८, ९ : १६;

वैश्री २१, २ : ३; -त्सान्यः  
काश्री २५, ११, २७; -त्से आश्री  
३, ११, २१; -त्सेः आश्री ३,  
१०, २०.

वीभत्समान- -न्तः आपघ २, ५, ४;  
हिघ २, १, ८४.

वीभीभत्सु- -त्सवः कौसू ७३, १८;

a) भाप., नाप. । b) पाभे. वैप २, ३६. पडुर्वीशः मंत्रा १, ३, १० टि. इ. । c) पाठः ? ननम्, -  
शङ्कु इति द्वे पदे ( तु. ला [श्री ३, ७ भू.] केशवधः वैतु. दारिणः यनि. समस्तमितीव ) । d) पूष. = कारा- ।  
e) = कारा- । f) वैप १ द्र. । g) सप्र. वन्धु, कजानतः <> वन्धू न विद्याव <> वन्धुनाम न विदितम्  
<> वन्धुनामानि न विन्देत इति पाभे. । h) पाभे. वैप १, ८७८ f द्र. । i) वन्धून् इति C. शोषः ? ।  
j) तु. पागम. । k) कर्तारि बच् प्र. ।



वोध १, ५, ६२.  
 वीम (त्स्य >) त्स्या<sup>१</sup> - त्स्याः वीश्रौ  
 १९, १० : ६२.  
**वधक<sup>१</sup>** -> १वाधक, का<sup>१</sup> - कः शांश्रौ  
 १४, २२, १४; काश्रौ २२, ३, ९;  
 आपश्रौ २२, ४, १५; हिश्रौ १७,  
 २, २१; -कम् वीश्रौ १४, १६ :  
 १; आमिष्ट २, ५, ५ : १<sup>१</sup>;  
 कौस् ३६, ३६; -काः आमिष्ट  
 २, ५, ५ : २<sup>१</sup>; -कान् वीश्रौ १४,  
 १६ : २; ३; कौस् ४२, २१;  
 -कानि वीश्रौ १८, ३६ : २;  
 -कायाम् आमिष्ट २, ५, ५ : ३;  
 -के कौस् १६, १९<sup>१</sup>; -केन वीश्रौ  
 १४, १६ : ५; ६; आमिष्ट २, ५, ५ :  
 २<sup>१</sup>; कौस् ४७, ४८; ११६, ६.  
 वाधकी - की अप्राय २, ९;  
 -कीम् कौस् ४७, १३; -क्याम्  
 वीश्रौ १४, १६ : ६.  
 वाधक-द्रण्ड - गण्डानि कौस् १६,  
 १७.  
**वधिर** - पाठ ४, १७३.  
**१वधिर** - √वध् द्र.  
**२वधिर** - (> वाधिरक- पा.) पाग ४,  
 २, ८०.  
**वधिरक<sup>१</sup>** - पा, पाग २, ४, ६९.  
**वधिर-ता** - ०रन्व - √वध् द्र.  
**वधिरिका<sup>१</sup>** - (> वाधिरिक- पा.)  
 पाग ४, १, ११२.  
**वधिरिमन्** - वधन्त् - √वध् द्र.  
**वध्न्य** - ध्न्यम् दंवि १, १०<sup>१</sup>.

**वध्यत्** - प्रभृ. √वध् द्र.  
**वन्धक<sup>१</sup>** - पाग ४, १, ४१<sup>१</sup>.  
 वन्धकी<sup>१</sup> - पाग २, १, ७०; ४,  
 १, १२३; १२६; पा ४, १, ४१.  
 वान्धकिनेय - पा ४, १,  
 १२६.  
 वान्धकेय - पा ४, १, १२३.  
 वान्धकि<sup>१</sup> - (> कायन् - पा.)  
 पाग २, ४, ६१.  
**वन्धथ** - वन्धन - प्रभृ. √वध्, द्र.  
**वन्धा** (> वन्धा/कृ पा.) पाग १,  
 ४, ६१.  
**वन्धा<sup>१</sup>** - (> वान्धायनि - पा.) पाग  
 ४, १, १५४<sup>१</sup>.  
**१वन्धु** - √वध् द्र.  
**२वन्धु<sup>१</sup>** - न्धुः निघ २, १०<sup>१</sup>.  
**३वन्धु<sup>१</sup>** - पाग ४, १, १५४; -न्धुः ऋञ  
 २, ५, २४; श्रुञ १, १९२××;  
 साञ १, ४४८; -न्धोः चाञ  
 ३० : १९.  
 वान्धवायनि - पा ४, १, १५४.  
 वन्धु-प्रभृति - त्तयः वृदे ३, ५९;  
 -तीन् वृदे ७, ८६.  
 वन्ध्वा (न्धु-आ) दि - दीन् ऋञ २,  
 १०, ५६.  
**४वन्धु** -> २वन्धु-र- पागम ४३१.  
**वन्धुका** - (> क्तिन् - पा.) पाग ४,  
 २, ८०.  
**वन्धु-गामिन्** - √वध् द्र.  
**वन्धुजीव<sup>१</sup>** -> ध्व-क<sup>१</sup> -> क-वत्  
 अप ५८, १, ७.

**वन्धुजीवा** (व-अ) घ (र >) रा<sup>१</sup> -  
 -राम् विध १, २२.  
**वन्धु-ज्ञान** - प्रभृ. १वन्धुर - √वध्  
 द्र.  
**वन्धूक<sup>१</sup>** - पाठ ४, ४१.  
 वन्धूक-निर्गुणडी-शिशु-तिल्व-  
 तिन्दुक-ज - जम् विध ६१,  
 ३.  
**वन्धूर** - पाठ १, ४१.  
**वन्ध्य** - √वध् द्र.  
**वप्सत्** - √भस् द्र.  
**१वधु** - भुः<sup>१</sup> हिश्रौ ६, ७, ८; हिष्ट १,  
 २९, १.  
**वभूवस्** - वभूवुपी - √भू द्र.  
**वभ्रि** - √भृ द्र.  
**१वधु, भू<sup>१</sup>** - पाठ १, २२; पाग ५, २,  
 १००; ३, १०८; -१वधुः  
 आपश्रौ २०, १४, ७<sup>१</sup>; हिश्रौ १४,  
 ३, १६<sup>१</sup>; वैताश्रौ; -१वधुः आपश्रौ  
 ३, ८, १; निस् ९, ३ : ३३; अप  
 ६६, ३, २; साञ २, ७९४; -भु  
 ऋषा १७, १४; -भुः आश्रौ ८,  
 ७, २४<sup>१</sup>; शांश्रौ १०, ११, ८<sup>१</sup>;  
 काश्रौ १५, २, १५<sup>१</sup>; ९, ५<sup>१</sup>;  
 आपश्रौ ६, ३१, ५<sup>१</sup>; २२, १५,  
 ३; वाधूश्रौ ४, ९६ : १२<sup>१</sup>;  
 वाश्रौ १, ५, ५, २<sup>१</sup>; ३, ३, १, ३०<sup>१</sup>;  
 ४, ३, १७<sup>१</sup>; हिश्रौ; भाष्ट २, ३२ :  
 १२<sup>१</sup>; अप ४०, ५, १<sup>१</sup>; या १२,  
 ४०<sup>१</sup>; -१वधुणा कौस् ४६, ५५;  
 अप १, ३६, ७; -भुम् आपश्रौ

a) विप. (२अप्-तु. तैआ १, २६, ७)। b) = वृक्ष-विशेष-। c) विकारार्थे षण् प्र. (पा ४, ३, १३७)। वैतु. P.W. प्रभृ. < २वाधक- इति। d) वाधः इति पाठः? यनि. शोषः (तु. वीश्रौ.)। e) कः इति पाठः? यनि. शोषः। f) = [वाधक-प्रज्जालित-] अमि- (तु. दारिलः)। g) भवाध<sup>१</sup> इति पाठः? यनि. शोषः (तु. वीश्रौ.)। h) व्यप.। i) व्यु. ? < √वन्ध् इति अभा. शक.। j) तु. पागम.। k) = वैरिणी-। l) रान्धकि- इति पाका.। m) धन-नामन्-। n) = [रक्तवर्ण-] पुष्प-। व्यु. ?। < वन्धु- + जीव- इति अभा.। o) स्वार्थे प्र.। p) वस. उप. = अघरोष्ठ-। q) पामे. वैप १, २२७०। द्र.। r) वैप १ द्र.। s) पामे. वैप १, २२६३। द्र.। t) नाप. (गो-).। u) = देवता-।

१४,६,१३, काठश्रौ ८३; वौश्रौ;  
-भ्रुवे वौश्रौ १४, २१ : २९<sup>६</sup>;  
-भ्रू<sup>६</sup> या ४, १५<sup>६</sup>कं; -भ्रूः काश्रौ  
७,६,१२<sup>०</sup>; माश्रौ १,५,२,१५<sup>६</sup>;  
-भ्रूणाम् या २, २८<sup>६</sup>कं; -भ्रूणि  
वाधूश्रौ ३, १०१ : ३; -भ्रून्  
आपश्रौ २०, १४, १३<sup>६</sup>; हिश्रौ  
१४, ३, १८<sup>६</sup>कं; अप ६३, १, २;  
-?भ्रू<sup>६</sup> वाधूश्रौ ४, ३५ : २;  
-कंश्रौः कौसू २६, ४३; अश्र २,  
९; -भ्रुवोः या ४, १५.  
वाभ्रुक- पा ५, ३, १०८.  
वभ्रु-क( र्ण )णी- -र्णाम् वौश्रौ  
२०, २५ : ५<sup>६</sup>.  
वभ्रु-तूल<sup>६</sup>- -लानि माश्रौ ३, ६, ४<sup>६</sup>.  
कंश्रु-नीकाश- -शाः शुप्रा ३, ९०;  
१२९.  
वभ्रु-पिङ्गल<sup>६</sup>- -लः अश्र ६, १४.  
वभ्रु-पिपीलिका- -कानाम् कौसू  
११६, ३.  
वभ्रु-मत्- पा ५, २, १००.  
वभ्रु-भ्रू- -त्रेण आपगृ २३, ४<sup>६</sup>;  
भागृ २, २८ : ५.  
कंश्रु-लो(मन् >)न्नी<sup>६</sup>- -ञ्जी  
आपश्रौ १०, २२, ४; हिश्रौ ७,  
२, १६.  
वभ्रु-व(त्स >)त्सा<sup>६</sup>- -त्सायै वौश्रौ  
१४, २१ : २९.  
वभ्रु-व(र्ण >)र्णा<sup>६</sup>- -र्णानाम् या  
९, २८.  
वभ्रु-श- पा ५, २, १००.

वभ्रु(भ्रू-अ)नूकाश<sup>६</sup>- -शान् आश्रौ  
२०, १४, १३<sup>६</sup>.  
२वभ्रु<sup>६</sup>- पाग ४, १, १०५; -भ्रवे  
आग्निगृ १, २, २ : २२; वौगृ ३,  
९, ५; भागृ ३, १० : ७; हिगृ २,  
१९, ६; -भ्रुः ऋश्र २, ५, ३०;  
-भ्रुम् वृदे ५, ३३.  
वाभ्रव- > 'व-दानच्युत-, 'व-  
शालङ्कायन- पा, पाग ६, २,  
३७.  
वाभ्रव्य- पा ४, १, १०५; १०६;  
पाग ४, २, ५३; -व्यः ऋप्रा  
११, ६५; -व्यम् कौगृ २, ५, ३;  
शांगृ ६, १, १; -व्याः वौश्रौप्र ३१;  
८; -व्याय आश्रौ १२, ९, १८.  
वाभ्रव्यक- पा ४, २, ५३.  
वभ्रु-वाभ्रव्य- -व्यौ अप ४३, ४,  
२०.  
१वभ्रूय भागृ २, ३२ : १२.  
१वभ्रौपव्यैः दंवि २, ४.  
वभ्रव्य-> वभ्रु-विश्ववयस्य<sup>६</sup>- पा, पाग  
६, २, १४०<sup>६</sup>; -यसोः चाश्र ४ :  
५.  
कंश्रु-भ्रारि<sup>६</sup>- -रिः शाश्रौ ६, १२, २०;  
वौश्रौ ६, २९ : १२; वैश्रौ १४,  
१२; १२; जैश्रौ १३ : १६; -०रे  
वौश्रौ ६, १५ : १५<sup>६</sup>.  
१वयः दंवि २, २.  
कंश्रु-व[.व]रास्ति, स्ती<sup>६</sup>- -सिम् हिश्रौ  
१०, ७, ३<sup>६</sup>; -स्ती आश्रौ ९, ४,  
१७; आपश्रौ १८, १०, २३; वळ

लाश्रौ ९, २, १५; -सीम् आपश्रौ  
१४, १३, ३<sup>६</sup>.  
व[.व]रु<sup>६</sup>- पाग ३, ४, ७४<sup>०</sup>; -रुः ऋश्र  
२, १०, ९६; वृदे ६, ६६<sup>६</sup>; -०रो  
वृदे ६, ६३<sup>६</sup>; -रोः शाश्रौ ११,  
१४, २६; ऋश्र २, ८, २४<sup>६</sup>.  
व[.व]र्कर<sup>६</sup>- पाउभो २, ३, ६४; -रम्  
काश्रौसं ३५:१५; -रस्य काश्रौसं  
३६ : १; वैश्रौ १३, ८ : १४<sup>६</sup>;  
हिश्रौ २४, २, १०<sup>६</sup>; -राय<sup>६</sup>  
आपश्रौ १५, ६, १६; माश्रौ ११,  
६, १२.  
वर्करो(र-उ)त्सर्ग- -र्गः काश्रौसं  
३५ : १४.  
वर्करो(र-उ)न्नयन- -नम् काश्रौसं  
३५ : १४.  
वर्जह<sup>६</sup>-> वर्जह्य<sup>६</sup>- -ह्ये दंवि २, २<sup>६</sup>.  
✓वर्च् पाधा. भ्वा. पर. गतीं.  
वर्वर<sup>६</sup>, वर्वर<sup>६</sup>- पाउ २, १२१; पाउभो  
२, ३, ३५; पाग २, २, ३८; ४, २,  
८०<sup>६</sup>; १२७<sup>६</sup>; ३, ९३.  
वार्वर- पा ४, ३, ९३.  
वार्वरीय- पा ४, २, ८०.  
वर्वर-त्ता- -त्ता ऋप्रा १४, २६.  
वर्वर-तीर<sup>६</sup>- -राः अप ५६, १, ५.  
वस्व<sup>६</sup>- -स्वेषु तैप्रा २, १८.  
✓वर्ह<sup>६</sup> पाधा. भ्वा. पर. प्राधान्ये; चुरा.  
पर. हिंसायाम्, उभ. भापायाम्.  
१, २ वर्ह<sup>६</sup>-, वर्हणा- प्रभृ. ✓वृह  
(यधा.) द्र.  
वळ वट् द्र.

a) =धनु-। b) वैप १ द्र.। c) भ्रुः इति चौसं.। d) विप. (शर्करा-). e) पाभे. पृ १३५२ B द्र.। f) णि इति ?संस्कृतः टि.। g) =ऋपि-विशेष-। h) भ्रू इति Winternitz.। i) वस.। j) तु. पाका.। लम्बावि इति भागडा. प्रभृ.। k) पाभे. वैप १, २२६४ Q द्र.। l) हिश्रौ. पाठः। m) परस्परं पाभे.। n) व्यप.। o) अर्थः ?। वह- इति भागडा.। p) व<sup>०</sup> इति पाठः। q) पाउभो. काश्रौसं. पाठः। r) =उगल-। व्यु. ? < ✓वृक् (आदाने) इति अभा.। s) नाप.। व्यु. ? < ✓वृ इति पाठ., < ✓वृ इति पाउभो., < ✓वर्च् इति पाउगृ ३, १३१। t) पाउ. पाठः। u) वर्वर- इति पाका.। v) देश-विशेष-। w) वैप १, २२६५ G द्र.।

✓वल् पाधा. भ्वा. पर. प्राणने घा-  
न्यावरोधने च; चु. उभ. प्राणने.

१वल<sup>३</sup>- पाग २,४, ३१; ५, २, १३६;  
पागवा ५, २, ९७; -लम् आश्रौ  
६, ३, १; १२, २; शाश्रौ ३, ७,  
४<sup>१०</sup>; १४, ५८, १; ६४, १; १८, ३,  
२<sup>१०</sup>; ११, २; ऋकाश्रौ ५, १२,  
१२<sup>०</sup>; १३, १<sup>३</sup>××; आपश्रौ; या  
३, ९<sup>१</sup>; ६, २३××; -लस्य वृदे  
२, ६; ३, ६२; निघ २, ९; या ५,  
२५; ९, २५××; -लात् सु ९,  
२; बाघ १७, ७३; शंघ; या ६,  
२८; ७, २<sup>१</sup>; १०, १०; -लानि  
या ४, ५; -ऋलाय शाश्रौ ४, ५,  
१; आपश्रौ; कागृ ४१, १३<sup>१</sup>;  
-ले वीश्रौ २६, ५ : २१; दंवि  
१, ५<sup>१</sup>; २, १०; -लेन हिश्रौ  
१५, ५, ४<sup>१</sup>; वैताश्रौ; ऋवीध २,  
१, ३४<sup>०</sup>; ४, २, ११<sup>०</sup>; या ६, ८;  
८, २××.

१वल-काम- -मः शाश्रौ १४, ५८, १;  
६४, १<sup>१</sup>; काश्रौ ४, १५, २३;  
क्षुस्; -मस्य आपश्रौ ६, १५,  
१; वाश्रौ १, ५, ३, १; वाश्रौ.

१वल-कृत्ति- -तिः अप ४८, १४०;  
या ७, १०; ८, २; -त्या वृदे १,  
८७.

१वल-क्षोभ- -भः अप ६३, ३, १०.

१वल-(ज>)जा<sup>१</sup>- -जायाम् आपश्रौ  
३, ४, ८; हिश्रौ २, ३, ४९.

१वल-इ<sup>३</sup>- -इ आपश्रौ ५, २४, ४;  
भाश्रौ ५, १६, १; माश्रौ १, ५,

६, २; वाश्रौ १, ४, ४, ४७; हिश्रौ  
३, ५, २५.

१वल-दा<sup>३</sup>- -दाः दंवि १, ६<sup>१</sup>.

१वल-दावन्<sup>३</sup>- -वा कौस् ७२, १८<sup>१</sup>.

१वल-धन- -नयोः या ८, २.

१वल-धा- -धा(ःधाः<sup>३</sup>) जैगृ १, २ :  
१६<sup>१</sup>.

१वल-नामन्- -म या २, २४; ९, २५;  
-मानि निघ २, ९; या ३, ९.

१वल-पति<sup>३</sup>- -तिः काश्रौ ५, १३,  
१<sup>१</sup>.

१वल-पुष्टि-कर- -रम् वृदे ८, ३२.

१वल-प्रती(क>)का<sup>१</sup>- -का या १०,  
२१.

१वल-प्रवा(द>)दा<sup>१</sup>- -दाः निसू ६,  
११ : ८.

१वल-भू- -भूः जैगृ १, २ : १६<sup>१</sup>.

१वल-वत्- पा ५, २, १३६; -वत्  
लाश्रौ ७, १२, ५; विघ २७, ७;  
शुप्रा १, १५९; -वतः कौस् ४,  
१<sup>१</sup>; -वता वीगृ ४, ४, ९;

-वत्सु या १, २०; -ऋवन्निः  
वीगृ २, ७, १६; हिगृ २, ८, २;  
चाअ १७ : ११<sup>१</sup>; -वन्तः अप

१८, ३, ११; -वन्तम् सु १४, २;  
-वान् वीश्रौ ५, १३ : १६××.

१वलवती- -ती शंघ ३३३;  
या ९, १०; आज्यो ७, १९;

-तीम् द्राश्रौ ३, २, १८; लाश्रौ  
१, १०, १३.

१वलवत्-त्(म>)मा- -माम्  
आपमं १, १५, १<sup>१</sup>.

१वलवत्-तर- -रः वृदे ५, ९४;  
पाप्रवा ५, १६; आज्यो ७, १९;

-रम् ऋपा १७, २१.

१वलिष्ट- -ष्टम् निसू ९, ७ : १५;  
आमिगृ २, ७, ६ : ३७<sup>२</sup>.

१वलिष्ट-त्(म>)मा- -मया  
वैताश्रौ २०, २१.

१वलीयस्- -यः आपश्रौ २१, १,  
२०; २४, ३, ४६; ४७; १४, ६;

वीश्रौ; आपमं २, २, ११<sup>१</sup>; शांगृ  
२, १, २९<sup>१</sup>; पागृ २, २, ११<sup>१</sup>;

आमिगृ १, १, २ : ४०<sup>१</sup>; वीगृ  
२, ५, १६<sup>१</sup>; भागृ १, ६ :

११<sup>१</sup>; वागृ ५, ९<sup>१</sup>; -यसे  
दंवि १, ७<sup>१</sup>; -यांसः कौस् ७६,

३०; -यांसम् वीश्रौ २७, ११ :

१०; लुस् ३, ११ : ३१; -यांसि  
भाश्रौ ६, १६, ३; -यांसौ भाश्रौ

६, १६, २; हिश्रौ ३, ८, ३८;  
-यान् आश्रौ १, १, २२; ५, ६;  
आपश्रौ.

१वलीयसी- -सी आपघ  
१, ४, ८; हिघ १, १, १२७;

-स्या वैताश्रौ २०, २१.

१वलीयस्-त्व- -त्वम् पावा  
३, १, ६७; ७, १, १.

१वल-वर्तिन्- -र्ती या ९, १०.

१वल-वित्त- -त्तयोः वृदे ३, ६१.

१वल-विशेष- -षेण आपघ २, १०,  
१६; हिघ २, ४, १६.

१वल-सामर्थ्य- -र्थ्यम् याशि २,  
१०७; नाशि २, ८, २१.

a) वैप १ द्र. । b) पाभे. वैप २, ३खं. वलम् माश ११, ४, ३, ७ टि. द्र. । c) पाभे. वैप १ वनम्  
कौ ३, १, ३ टि. द्र. । d) सपा. पागृ २, २, ११ वलीयः इति पाभे. । e) पाभे. वैप १, १६९६ ० द्र. ।  
f) = धान्य-राशि- । = वंशवन्धन-रज्जु- इति (पक्षे) रुददत्तः । g) पाभे. वैप १, २२६६ १३ द्र. । h) पाठः ? यनि.  
शोघः (तु. ०.) । i) पाभे. वैप २, ३खं. वलसात् मंत्रा २, ४, ६ टि. द्र. । j) वस. । k) पाभे. वैप २, ३खं.  
१वलमृत् मंत्रा २, ४, ६ टि. द्र. । l) पाभे. वैप १, २२६८ b द्र. । m) षमद्भिः इति पाठः ? यनि. शोघः  
(तु. सप्र. मै २, ९, १) । n) पाभे. वैप १, २२६६ q द्र. । o) पाभे. पृ १३५३ i द्र.

वलात्-कार-स्म विध ५, १८४.  
 वलात्कारो(र-उ)पमु(क्त >)  
 का-का वाघ २८, २.  
 वला(ल-अ)वल-लम् अप ५८<sup>१</sup>,  
 १, ७; माशि ७, १; आज्यो ७,  
 २२; -लानि आज्यो ७, २३.  
 वलिन्- पा ५, २, १३६; -लिनः  
 आपमं १, ९, २; माग १, १४, ८;  
 दंवि २, ४; -लिनम् सु८, १०; ३१,  
 ७; -लिनौ वीश्री १८, ४५: १८;  
 -ली वृदे ६, ११४; दंवि १, ७१.  
 वल्ल- पावा ५, २, ७; १२२.  
 १वल्य<sup>२</sup>-ल्यम् द्राग ४, २, १०.  
 र्वल<sup>३</sup>-लः आज्यो १, ९; -लेन  
 आज्यो २, ११.  
 र्वल-(>वल-कुण-)कुवल-टि. द्र.  
 धवल-वल-द्र.  
 पवल-(>वल-स-, २वल्य-पा.)  
 पाग ४, २, ८०<sup>३</sup>.  
 दवल<sup>४</sup>-लः या ९, १०<sup>४</sup>; दंवि २, १०?  
 वलका<sup>५</sup>-का याशि १, ७१; -काम्  
 याशि १, ७१.  
 वल-काम-प्रम्. १वल-द्र.  
 वलक्ष<sup>६</sup>-क्षम् आपश्री २०, १३, १२;  
 वीश्री १५, २३: ७; २६: ८;  
 लाश्री ८, ६, १६.  
 वलक्षी<sup>७</sup>-क्ष्याः आपश्री १०, २६,  
 १२; भाश्री १०, १७, १८.  
 वल-शोभ-प्रम्. १वल-द्र.  
 वला<sup>८</sup>-ला अप ५, १, ५.  
 वलाक, का<sup>९</sup>-पाउ ४, १४; पाग ४,  
 १, ९६; ५, २, ११६; -कः शंघ  
 ३७७: २०; -का विध ४४,  
 २५; -काः शंघ ४२६.

वालाकि- पा ४, १, ९६.  
 वलाका-वत्-, वलाकिन्- पा ५, २,  
 ११६.  
 वलाया<sup>१०</sup>-या नाशि १, २, ९.  
 वलास<sup>११</sup>-सम् दंवि १, ६; -सस्य  
 अप ३२, १, ७.  
 वलास-देवता->ल्य-ल्यम् अश्र  
 ६, १४.  
 वलाह-(>वालाहक- पा.) पाग ४,  
 २, ८०.  
 वल, वलाहक<sup>१२</sup>-पाग ६, ३, १०८;  
 -लकः अप ४८, १००; निघ १,  
 १०; -कैः अप ६१, १, १५.  
 र्वलि<sup>१३</sup>-पाउ ४, १२४; -लयः आपग  
 ८, ४; भाग्य; -लिः आपश्री १६,  
 ३२, ४१; वैश्री; -लिना आपश्री  
 १३, २२, ५१; वीश्री ४, ११ :  
 ९; १४; वैध १, ४, ४; -लिभिः  
 कप्र २, ४, ८; अप ७०<sup>३</sup>, १६, २;  
 -लिम् वीश्री १७, ४४: ७१;  
 आपमं; -ली जैग १, २३:  
 २; -लीन् द्राश्री १२, १, ६;  
 लाश्री ४, ९, ४; आग्य; -लीनाम्  
 आपध २, ३, १५; १८; हिघ  
 २, १, ४६; ४८; -लेः आग्य २,  
 १, १०.  
 १वालेय- पा ५, १, १३.  
 वलि-कर- पा ३, २, २१.  
 वलि-कर्मन्-र्म पाग २, १७, १७;  
 वैग ७, ६: १२; जैग २, ९: १;  
 कप्र; -र्मणः कप्र २, ४, ६; -र्मणा  
 कौग १, ६, ७; शाग १, १०, ७;  
 -र्मणि कप्र १, ५, २.  
 वलिकर्म-समन्वित- -तम् कप्र

२, ९, ३.  
 वलि-तन्त्र- -न्त्रम् गोग १, ४, २३;  
 २४.  
 वलि-दान- -नम् वैग ४, २: ७;  
 ५, १०: ६x४; कप्र २, ३, ११;  
 गौध १०, २३.  
 वलिदान-प्रदाना(न-अ)र्थ-  
 -र्थम् कप्र २, ३, ११.  
 वलि-दैवत- -तानि द्राग १, ५, ३३.  
 वलि-निर्वपण- -णम् वैग ५, ११:  
 ८.  
 वलि-निर्वापण- -णम् वैग ७, ३:  
 १०; ७: १.  
 वलि-पुष्पो(ष-उ)पहार- रैः अप  
 ७०, ७, ५.  
 वलि-प्रि(य >)या<sup>१४</sup>-यासु विघ  
 ९९, २१.  
 वलि-भोजिन्- -जिनः आमिग २,  
 ४, ८: ८.  
 वलि-मत्- -मतः काश्रीसं ५:  
 १५; -मते काश्रीसं ३: ५१;  
 ५: १५; १६१; -मान् अश्री  
 १५, ३१.  
 वलि-मन्त्र- -न्त्रः भाग्य ३, १२: १;  
 -न्त्रस्य आपग १९, ४.  
 वलि-रक्षित- -ताभ्याम् पावा २,  
 १, ३६.  
 वलि-वर्जम् कप्र ३, ९, १२.  
 वलि-विधि- -धिम् आमिग २, ४,  
 ८: १.  
 वलि-शेष- -पम् वैग ३, ७: २३;  
 गोग १, ४, १२; -पस्य कप्र ३,  
 ९, ७.  
 वलि-स्थान- -ने वैग ५, ७: १०.

a) विप. (श्रवसान- [निवास-स्थान-]) । तद्धितः यत् प्र. । b) = मुहूर्त-विशेष- । c) अर्थः  
 व्यु. च? । d) अ-वलः इत्यस्य उप. इति स्क. । e) = सम्मृति-विशेष- । f) वैप १ द्र. ।  
 .g) = श्लोपधि-विशेष- । h) = मूर्च्छना-विशेष- । i) निघ. पाठः । j) = मेघ- । k) वैप २, २२६७ P  
 द्र. । l) वस. ।

वलि-हरण (वप्रा.)<sup>a</sup>- णम् वौश्रौ  
२४, ४: ३<sup>b</sup>; आगृ १, २, ३;  
पागृ; वौगृ १, १, १<sup>b</sup>; १०<sup>b</sup>;  
११, १<sup>b</sup>; २, ८, १<sup>b</sup>; ९, २६; ४, ९,  
२<sup>b</sup>; वैगृ; -णस्य वागृ १७, १९;  
गोगृ १, ४, २७.

वलिहरणी- णीम् आगृ २,  
१, २.

वलिहरणा(ण-अ)नुकृति<sup>c</sup>- तः  
वौगृ ३, ९, १; १०, १; -तीनि  
वौगृ ३, ७, २९.

वलि-हार<sup>d</sup>- रः मागृ २, १६, ३<sup>f</sup>.

वलि-हृत्<sup>e</sup>- हृतः वौश्रौ ३, १६:  
२७; भाश्रौ ४, ९, २; मागृ २,  
८, ४; कौसृ ३, १.

वलय(लि-अ)न्त- न्ते कप्र १, ९, ७.

वलय(लि-अ)र्थ- र्थम् विध ३, २२.

वल्या(लि-२आ)घ<sup>g</sup>- घाः अप ३६,  
८, २.

वलयु(लि-उ)पहार- रैः अप २१,  
६, ६; ६८, ५, २१.

वलि<sup>h</sup>- (> ववालेय- पा.) पाग ४,  
१, १३६.

वलिन्- णवल- द्र.

वलि, ली|वर्द<sup>i</sup>- फि ६४ -र्दः  
वौश्रौ ३, २३: ८; २६, ११:  
१९<sup>k</sup>; भाश्रौ ५, ८, १४; शंघ  
३७७: १६; -र्दम् वौश्रौ २५,  
३०: १; भाश्रौ १०, १९, १३;  
हिश्रौ ७, ३, १४; -र्दाः कौगृ ३,  
१०, ३५; सांगृ २, १६, ४; -र्दान्  
आपश्रौ १६, १८, ३××; वैश्रौ;  
-र्दाय<sup>l</sup> आपश्रौ २०, २१, ६;

वौश्रौ १५, ३५: ७; २६, ११:  
१७.

वलिष्ट- वलीयस्- णवल- द्र.

वलीवर्दी<sup>m</sup>- (> वलीवदिनेय-) पाग  
४, १, १२६.

वलीवर्दिन्<sup>n</sup>- (> वलीवर्देय- पा.)  
पाग ४, १, १२३.

वलीवर्दी<sup>o</sup>- (> वलीवर्दिनेय-)

वल्लूक- वल्लूक- द्र.

वल्लूल- णवल- द्र.

वल्लूकश, स<sup>p</sup>- शस्य वौश्रौ १७,  
३६: ५; -सम् आपश्रौ १९,  
४, ८.

वल्लू [व]ज<sup>q</sup>- पाठभो २, २, ९२;  
पांग ४, २, ८०; ३, १४२<sup>k</sup>; ५, १,  
५०; -जम् कौसृ ७८, ३<sup>r</sup>; अप्रा  
३, ४, १; दंवि २, २; -जस्य अप  
२३, १, ५; -जान् आपश्रौ १९,  
१९, ४; वौश्रौ; -जानाम् वौश्रौ  
२३, २: ९.

वाल्वज- जम् काश्रौ २६, २, ८.

वाल्वजी- जी काश्रु ७, १३;

-ज्या हिपि १३: ९.

वाल्वजिक- पा ४, २, ८०; ५,  
१, ५०.

वाल्वज-भार-> वाल्वजभारिक-

पा ५, १, ५०.

वल्व [व]ज-मय- पा ४, ३,  
१४४<sup>r</sup>.

वल्वूथ<sup>s</sup>- ये शाश्रौ १८, १४, ५<sup>t</sup>.

वल्वूल<sup>u</sup>- लः सु २३, ३.

वल्थ- णवल- द्र.

वल्थ- णवल- द्र.

वल्लभ- वल्लभ- द्र.

√वल्लू पाधा. भ्वा. आत्म. प्राधान्ये;  
सुरा. उभ. भापायाम्.

वल्लिक<sup>v</sup>- कान्<sup>w</sup> दंवि २, ६<sup>x</sup>!

वल्<sup>y</sup>- वम् आज्यो ४, २; ५; -वस्य  
आज्यो ५, १६; -वेन आज्यो ५,  
२.

व [व]क्<sup>z</sup> फ्य<sup>aa</sup>- पाग ४, १, ८६; -ये  
दंवि २, ९<sup>ab</sup>.

वा [वा] फ्य- पा ४, १, ८६.

वफ्यणी- पा २, १, ६५.

वस्त(वप्रा.)<sup>d</sup>- पाठभो २, २, १३०;

-स्तः काश्रौ ८, ९, १<sup>b</sup>; आपश्रौ

१७, १, ८<sup>c</sup>; वौश्रौ १०, ३८:

१८<sup>c</sup>; वाधूश्रौ; -स्तम् आपश्रौ

१८, २१, ७; वौश्रौ; -स्तस्य

आपश्रौ १६, २७, १२; १८;

वौश्रौ; -स्तान् काश्रौ १४, ८,

१३; -स्ते वौश्रौ २, ५: ४<sup>c</sup>;

-स्तेन शाश्रौ १५, १२, ३;

अप्राय ५, ६.

वास्त- स्तम् वैगृ २, ४:

४<sup>d</sup>; -स्ते वैश्रौ १७, १५:

१०.

वस्त-चर्मन्- र्मलाश्रौ ८, ११, २२;

-र्मणा काश्रौ १४, ५, १७;

-र्मणि काश्रौ १४, ५, १५; १८,

५, १२; हिश्रौ १२, ६, ९.

वस्त-पूर्व-पर<sup>e</sup>- रः भाशि ६४.

वस्ता(स्त-अ)जिन<sup>f</sup>- नम् आपश्रौ

१८, ५, २१; वौश्रौ ११, २××;

माश्रौ; -ने आपश्रौ १७, १९,

६××; वौश्रौ.

a) = वलि-दान- । b) पाकयज्ञ-संस्था- । c) वस- । d) वैप १ द्र- । e) व्यप- । f) वैप  
२, ३खं. द्र- । g) °लि° इति पाठः । h) = परिवत्सर- इति तैत्रा [३, ८, २०, ५], C. [पक्षे] चन्द्र- इति । पाभे-  
वैप १, २२६८ f द्र- । i) °वर्दी- इति पाका- । j) भाण्डा. प्रमृ. पाठः । k) तु. पाका- । l) = सर्प-विज्ञान- ।  
m) °कानि इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. संस्क्रुः टि., श्रौ ५, २२, ७ च) । n) = करण-विशेष- । o) पाका. पाठः ।  
p) तु. चौसं. । व° इति अच्युं- । q) °स्तवम् इति पाठः ? यनि. शोधः । r) वस- > द्रस- ।

रवस्त<sup>३</sup>- (>वास्तायन- पा.) पाग  
४,१,११०.

वस्त-वासिन्<sup>०</sup>- -स्निनः दंवि १, ९१.

१वस्ति<sup>०</sup>- पा, पाग २,४,६३.

रवस्ति- वस्ति- द्र.

वहिस् (:, र, श्, ष्)<sup>०</sup>- -हिः आश्रौ  
८,१४,३; १०,८,२; शाश्रौ; पा  
२, १, १२; वहिःऽ-हिः काश्रौ  
१६,२,२३.

वाहीक- पात्रा ४,१,८५.

वाह्य, ह्य<sup>०</sup>- पात्रा ४, १, ८५;

-ह्यः कौसू ७६,९; आशि<sup>०</sup> ३,२;

४, १; ११; -ह्यम् वौश्रौ २५,

१ : १६; भाश्रौ; आशि ८, २६०;

-ह्याः आपश्रौ २१,९, ३; २४,

२, १३; वाश्रौ; -ह्यानाम् विष

१६, १८; -ह्यानि वौगृ २, २ :

१३; -ह्याम् आपश्रौ १६, ३२,

२; १९, ११, ६; ऋहिश्रौ ११,

१, २६; २३, २, ६; -ह्याम्ऽ-ह्याम्

आपश्रौ १६, ३, १; ३२, १; वैश्रौ;

-ह्यायाम् आपश्रौ १९, १२, १;

हिश्रौ २३, २; १२; -ह्ये काश्रौ

२६, ७, १८; आपश्रौ ७, ३, ८;

अप; -ह्येन<sup>०</sup> काश्रौ १८, ३, ६;

वौश्रौ; -ह्येषु आपव १, ९, १८;

हिष १, ३, १८.

वाह्य-वस् (: ) शाश्रौ १४,

१३, ४; आपश्रौ २, ४, ५××;

वौश्रौ.

वाह्यतो-ल्येन<sup>०</sup>- -ञा

शाश्रौ १७, ३, ५.

वाह्य-वाञ्- -वाक् माशि

१२, ५.

वाह्य-विशे(ष>)षा<sup>०</sup>-

-पाः आपशु २०, ५; ९; १४;

हिशु ६, ४३; ४९; ५४?;

-षाम्याम् आपशु २०, ८; हिशु

६, ४८; -षे आपशु २०, ५;

हिशु ६, ४५.

वाह्य-सविशे(ष>)षा<sup>०</sup>-

-षे वौशु १४ : ३.

वाह्य-हुत- -नम् कौगृ १, ६,

७; शांशु १, १०, ९.

वाह्यां(ह्य-अं)स<sup>०</sup>- -सः गोशु

१, २, २०.

वाह्यां(ह्य-अं)ङ्गुष्ठ<sup>०</sup>- -ष्टम्

माशि २, १.

वाह्यां(ह्य-अं)भ्यन्तर-मध्य-

तसु (: ) अप ६३, ४, १०.

वहिः-कञ्ज<sup>०</sup>- -ञः शंष २२६.

वहिः-परिधि<sup>०</sup>- -धि आपश्रौ ९, २,

९; १६, १××; वौश्रौ.

वहिः-पूर्व<sup>०</sup>- -र्वः जैश्रौका १२२.

वहिर्-जङ्ग-लक्षण- -ञ- -त्वाद्

पात्रा १, १, ४७; २, ४७; ३, १,

३××.

वहिर्-जाञ्जन<sup>०</sup>- -नम् वौश्रौ ९, ११ :

१५; वैश्रौ १३, १३ : १३?!

वहिर्-उपसत्क<sup>०</sup>- -क्तः वौश्रौ २५,

२८ : २२; -क्तम् वौश्रौ २५,

२८ : २०.

वहिर्-ऋच<sup>०</sup>- -चम् निस् ३, ११ :

२१.

वहिर्-ग्राम<sup>०</sup>- -मे क्षय ३३, ४, ३.

वहिर्याम-निवसन- -नम् विष

१६, १४.

वहिर-जानु<sup>०</sup>- -नुः वौष १, ५, १५.

वहिर-जानु-कर्<sup>०</sup>- -रः शंष २२६.

वहिर-ज्योतिस्<sup>०</sup>- -तिः वायुश्रौ

३, २५ : १; ५.

वहिर-गि(<नि)घन<sup>०</sup>- -नम् निस्

४, ७ : २२; -नस्य निस् ४, ७ :

२८; -नानाम् निस् ४, ७ : २५;

-नानि निस् २, ३ : ३; ५; १०.

वहिरिणघन-त्यान- -ने निस् ४,

७ : २३.

वहिर-द्वार- -रे वागृ २, ११.

वहिर-धा वायुश्रौ ४, २३ : ४; शुभ्रा

५, २० ऋं.

वहिरिर्भा-भाव- -त्वाद् काश्रौ ९,

१, ८.

वहिर-निर्वाष<sup>०</sup>- -घम् वैश्रौ १८,

७ : २९<sup>म</sup>; -घान् आपश्रौ १६,

१०, ९<sup>म</sup>.

वहिर-भस्मन्<sup>०</sup>- -स्म नाश्रौ १, २,

३, २.

वहिर-भाग- -नाम् निस् ३, ५ : १;

२; ४; ६; ६ : २३.

वहिर-मण्डल- (त्य>)त्या<sup>०</sup>-

-त्याभिः शांशु ६, २, ९.

वहिर-योग- पाग २, ४, ६३<sup>म</sup> ०;

-नेण पात्रा १, १, ३६.

वहिर्योगो(ग-उ)पलंघ्यान-

-नयोः पा १, १, ३६.

वहिर-ल्योम<sup>०</sup>- पा ५, ४, ११७;

-सम् वैश्रौ १२, ८ : ७; -ना-

भ्याम् आपश्रौ १०, ८, १२.

वहिर-ल्योमन्<sup>०</sup>- -स आपश्रौ १७,

a) व्यप. 1

b) वैष १ द्र. 1

c) =वाह्य-प्रयल- 1

d) वा. क्तिवि. 1 c) वस. 1

f) वा<sup>०</sup> इति पाठः? यनि. शोषः 1

g) =वहिष्णवमान- 1 h) तु. पृ २१६ ६ 1 i) ऋञ्ज<sup>०</sup> इति पाठः? यनि.

शोषः (तु. वौश्रौ.) 1 j) अत्र. 1

k) वस. >द्वत्. 1 l) उप. =सामभक्ति- 1 m) पामे. वैष १,

२२६९ ० द्र. 1 n) अत्र. >उत्त. 1

o) वहिर्योग- इति पाठः. 1 p) वस. (तु. वैष १, २३४ d) 1

q) तु. पृ २१९ 1 1

२६, १४<sup>१२</sup>; आपध १, २८, १९;  
 २१; हिध १, ७, ५४; ५७; —आ  
 वौश्रौ २१, १२ : २१; हिश्रौ ७,  
 ३, ५; —झी काठश्रौ ७६.  
 वहिर्-विध<sup>१</sup>— -घम् आपश्रौ १६,  
 २०, ५; वैश्रौ १८, १६ : २२;  
 हिश्रौ ११, ६, ५२.  
 वहिर्-विराज<sup>१</sup>— -जम् वौश्रौ २४,  
 ३३ : ९; १२.  
 वहिर्-विशसन<sup>१</sup>— -नम्<sup>१</sup> भाश्रौ १,  
 २१, १; वैश्रौ ४, ६ : ९; १२,  
 १९ : २३; हिश्रौ १, ५, ४२.  
 वहिर्-वेद— -दे आपध १, १३, १२;  
 हिध १, ४, २६.  
 वहिर्-वेदि<sup>१</sup>— -दि आश्रौ १, १२,  
 ४; ४, ८, २८××; शांश्रौ.  
 वाहिर्वेदिक<sup>१</sup>— -कानि काश्रौ  
 २२, १, ४०.  
 वहिर्वेदि-सद्— -सदः आश्रौ  
 १२, ८, २०.  
 वहिर्-शौच<sup>१</sup>— -चम् वौध १, ५, ४.  
 वहिः-शर्कर<sup>१</sup>— -रात् वौश्रौ १०,  
 २५ : १७××.  
 वहिः-शाला<sup>१</sup>— -लायाः वागृ २,  
 १४, ११; —लायाम् शांश्रौ १, ५,  
 २; पागृ १, ४, २.  
 वहिष्-कर्मन्<sup>१</sup>— -र्मं शांश्रौ ७, ७, ४;  
 १७, १३.  
 वहिष्-रात् भाश्रौ ७, ८, १२; वाधूश्रौ  
 ४, ७८ : ३.  
 वहिष्टाद्-विशसन<sup>१</sup>— -नम्<sup>१</sup>

आपश्रौ १, १९, ३; १०, २७, १०;  
 १९, २७, ११.  
 वहिष्टान्-निर्वाध<sup>१</sup>— -घम् हिश्रौ  
 ११, ३, २६<sup>१</sup>।  
 वहि-(स्थ>)ष्ट<sup>१</sup>— -ष्टः हिपि २० :  
 ४; —ष्टे हिश्रौ ४, २, ५७<sup>६</sup>.  
 वहिष्-पत्नीसंयाज<sup>१</sup>— -त्व— -त्वात्  
 लाश्रौ १०, ३, १.  
 वहिष्-पद-लक्षण<sup>१</sup>— -णे पावा ८,  
 २, ६.  
 वहिष्-परिधि<sup>१</sup>— -धि आश्रौ १, १२,  
 ३४; ३, १३, १६; काश्रौ १९, ३,  
 २०; काश्रौसं.  
 वहिष्-पल— वहिष्पल— टि. द्र.  
 वहिष्-पवमान<sup>१</sup>— -नः आश्रौ १०, ३,  
 ११; शांश्रौ २, १, १××; आपश्रौ;  
 -नम् आपश्रौ १४, २६, ३; २०,  
 १३, ४; वौश्रौ; —नस्य माश्रौ  
 २, ३, ६, ८; लाश्रौ; —नात् आश्रौ  
 १, ४, २; आपश्रौ; —नाय काश्रौ  
 २०, ५, ३; आपश्रौ; —ने शांश्रौ  
 ५, १०, ३५××; वौश्रौ; मीसू ५,  
 ३, ५७<sup>७</sup>; —नेन शांश्रौ ६, ८, ३;  
 वाधूश्रौ.  
 वाहिष्पवमानीय<sup>१</sup>— -यम्  
 जैश्रौ १३ : ७.  
 वहिष्पवमान-देश<sup>१</sup>— -शः शुश्र  
 १, ३४२; —शम् वैश्रौ १४, १३ :  
 ४.  
 वहिष्पवमान(न-ऋ)र्च<sup>१</sup>— -नर्चः  
 द्राश्रौ ४, १, १०; लाश्रौ २, १, ९.

वहिष्पवमान-वत् आपश्रौ १३,  
 २, ७.  
 वहिष्पवमान-संयोग— -गः  
 लाश्रौ ७, ११, २२.  
 वहिष्पवमान-समाधि— -घये  
 निसू ७, ६ : १४.  
 वहिष्पवमान-स्तोत्र— -त्रम् वैश्रौ  
 १७, ६ : ७.  
 वहिष्पवमाना(न-आ)स्ताव—  
 -वम् आपश्रौ ११, १४, १०;  
 १२, १९, ७.  
 वहिष्-पिण्ड<sup>१</sup>— -ण्डम् काश्रौ १६,  
 ५, १.  
 वहिस्-तन्व<sup>१</sup>— -न्वम् वौश्रु ६ : ९<sup>१</sup>.  
 वहि-स्प-न्वा>— -न्व<sup>१</sup>— -न्वम् वौश्रु  
 २ : १५; १९.  
 वहिस्-संध्य-त्व— -त्वम् गौध २,  
 १६.  
 वहिः-सदन<sup>१</sup>— -नम् वैश्रौ १५, २३ :  
 १९.  
 वहिः-सदस्<sup>१</sup>— -दः शांश्रौ १७, ४, २.  
 वहिः-सदस्<sup>१</sup>— -सम् वौश्रौ ७, १० :  
 १३; ११, ४××; वैश्रौ.  
 वहिः-स्नायिन्— -यी विध ८९, ३.  
 वहिः-स्वार<sup>१</sup>— -रम् क्षुस् ३, १० :  
 ९; १७; ४४; ४५; निसू ६, ८ :  
 ४२; ८, ६ : ४७; —रस्य क्षुस् ३,  
 १० : ९; १७.  
 वहु<sup>१</sup>— पाठ १, २९; पा ६, २, ३०;  
 पाग ४, १, ४५; ५, १, १२२;  
 -हवः आश्रौ १, ११, १<sup>१</sup>; ३,

a) षमः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. संस्कृतः टि.) । b) पृ २२० h द्र. । c) वस. । d) सपा. वहिर्विशसनम्  
 <>वहिष्टाद्-विशसनम् इति पाठे. । e) वैप १ द्र. । f) तत्रभवतीयः प्र. । g) मलो. कस. । h) अस्त. ।  
 i) वहिष्टनि<sup>०</sup> इति पाठः? यनि. शोधः (तु. वैप १, २२६९ ० पाठे.) । j) उस्. पूष. विसर्गलोपः (पावा ८, ३, ३६) ।  
 k) =वहिर्भाग- । वहिष्टात् इति मूको. । सप्र. आपश्रौ ७, १०, ११ मूलम् इति पाठे. । l) मलो. कस. > वस. ।  
 लक्षणशब्देऽवयवार्थके सति (तु. कैयटः) उप. पस. । m) तु. जीसं. । n) इदमर्थे छण् प्र. उस्. (पावा ४, २,  
 १३८) । o) उप. =बुद्बुद्- (तु. विद्याधरः) । p) उप. पृ ११६० b द्र. । q) पृ २२० t द्र. ।  
 r) अस्त. पाक्षिकः समासान्तपृ टच् प्र. (पा ५, ४, १०७) । वा. क्रिवि. । s) नाप. । वस. ।

१,१०××; शांश्रौ; -हु<sup>३</sup> आश्रौ २, १८, ८; १०, ८, ११<sup>१</sup>; ऋशांश्रौ १२, १६, १; १६, ४, ४<sup>१</sup>; ६; १७, १७, १<sup>२</sup>; काश्रौ; -हुः शांश्रौ १०, १४, २; काश्रौ; आपश्रौ ६, २७, २<sup>१</sup>; क्रौश्र ३, ४, ५<sup>१</sup>; शांश्रु ३, ७, २<sup>१</sup>; -हुनः या २, ७; -हुना निस् १०, ७; २९; -हुमिः वाधूश्रौ ३, ८८; १२; २१; -हुभ्यः आमिगृ ३, ५, २; १; वौषि १, २; १; वृदे ४, १०१९; या १०, २०; -हुम् वाश्रौ ३, २, १, २५; -हुषु आश्रौ २, १, ६; काश्रौ ६, ३, १६; ८, २, ३; वौश्रौ; पा १, ४, २१××; -हुन् शांश्रौ १६, ३, २८; आपश्रौ ६, २४, ८<sup>१</sup>××; वौश्रौ; हिश्रौ ६, ७, २<sup>१</sup>; -हूनाम् आश्रौ २, १, ६; शांश्रौ ९, २२, ६; वौश्रौ; -हूनि कागृ ३९; ५; भागृ; या ७, ५; ११, १६; २१; -होः शांश्रौ १७, १७, १<sup>१</sup>; आपश्रौ; पा ५, ४, २. वही- पा ४, १, ४५; -ह्वीः ऋआपश्रौ १, २, ९; ११, १××; वौश्रौ; -ह्वीनाम् आपश्रौ २०, १६, ८<sup>१</sup>; वौश्रौ २४, ३१; ८; हिश्रौ १४, ३, ३१<sup>१</sup>; वाध; या ९, १४<sup>१</sup>; -ह्वीमिः आपश्रौ १३, १७, २; वैश्रौ; -ह्वीम् आपमं १, ८, ३; ११, ७; -ह्वीषु वृदे १, ४४; -ह्वयः वौश्रौ १५, ३; १;

वृदे ३, ८२; -ह्वया वाश्रौ २, १, २, १२. बहु-कर<sup>६</sup>- पा, पावा ३, २, २१. बहु-कर्म-तम- -मः या ६, १३. बहु-काम- -माः शांश्रौ १०, २१, १५. बहु-कार- -०र- काश्रौ १५, ७, १०<sup>१</sup>. बहु-कृष्णाजिन<sup>१</sup>- -नः या ३, १९. बहु-क्रम- -मम् ऋप्रा ११, २०; -मे ऋप्रा ११, २५; ३५. बहु-श्री(र>)रा<sup>१</sup>- -राः अप ५७, ३, ४. बहु-गण<sup>०</sup> पा १, १, २२. बहु-नामिन्- -मितौ या १४, २३<sup>२</sup>. बहु-गुण<sup>१</sup>- पा, पाग ६, २, १७६; -गानि वौश्र १, २, ३. ऋबहु-(गु>)गू<sup>१</sup>- -ग्वै आपश्रौ २०, ४, ३; वौश्रौ १५, ५; २०; हिश्रौ १४, १, ३८. बहु-ग्रहण- -गम् पावा ५, १, ३१; -णे पावा ५, ३, २. बहु-चारिन्- -री अश्र ११, ३(२)<sup>१</sup>. बहु-चारिणी- -णी कौसु ३७, ९. बहु-छन्दोमान- पा, पाग ६, २, १७६. बहु-ज- -जः या १४, २९<sup>१</sup>; ३१. बहु-ज(न>)ना<sup>१</sup>- -नायाम् आपश्रौ १३, ९, २. बहु-जव<sup>१</sup>- -०वाः या १२, ४३. बहु-जात- -तः या १२, ३६. बहु-जाया- -याम् आमिगृ ३, १०, ३; १; ६.

बहु-ज- -जम् वाध ६, ३०; -जेन वौध १, १, १३. बहु-तय- -यम् वौश्रौ ६, ६; २६; वाधूश्रौ ३, ७६; १५; १७; -यान् वाधूश्रौ ३, ७६; १२; १८; -यानि वाधूश्रौ ३, ७६; ११. बहुतयी- -यीः वाधूश्रौ ३, ७६; ११; १२; १८. बहु-ता- -तया भागृ २, २८; ४. बहु-तिथ- पा ५, २, ५२. बहु-तो(य>)या<sup>१</sup>- -यासु विष ८५, ६५. बहु-त्रि- > ऋत्रि-वर्ष<sup>६</sup>- -र्षस्य लाश्रौ ८, ३, ९<sup>१</sup>. बहु-त्व- -त्वम् वाश्रौ ३, २, ६, ४०; अप ६३, १, ४; विव ८, ३९; वृदे १, १२; -त्वात् कप्र २, २, १२; -त्वे कौशि ११. बहुत्व-श्रुति- -त्तेः नीसु ३, ५, २६. बहुत्वा (त्व-अ) भाव- -वात् पावा २, २, २९. बहुत्वै (त्व-ए) कत्व-लक्षि (त>) ता- -ताः वृदे ३, ३५. बहु-दक्षिण, णा<sup>१</sup>- -णाम् अप ५४, २, ४; ६४, १०, १०<sup>१</sup>××; -णेन नाश्रौ ५, १, १, ३७. बहु-दस्यु<sup>३</sup>- -स्यवः शांश्रौ १५, २६, १. बहु-दात्-तर- -रौ या ६, ९. ऋबहु-दास-पु(,पू<sup>३</sup>)रु(य>)पा<sup>०</sup>- -पायै आपश्रौ २०, ४, ३; वौश्रौ

a) क्वचित् वा. क्वि. । b) पाभे. वैप १ (परि.) बहु मा २२, ३१ टि. द्र. । c) पाभे. वैप १, २२७० । द्र. । d) ऋ इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सपा. मा ३, ४२ प्रन्.) । e) पाभे. वैप १, २२७० । द्र. । f) पाभे. वैप १, २२७१ । द्र. । g) उप. टः वा लच् वा प्र. । h) पाभे. वैप १, २२४७ । द्र. । i) वस. । j) बहुजः शब्दो भवति इत्यस्य स्थाने दु. बहुशब्दा भवन्ति इति । k) विप. (साण्ड-) । वस. पूष. (विप. = ईषदपूर्व-त्रित्व-विशिष्ट-) बहुच् प्र. तस्य च पुरस्ताद् योगः (पा ५, ३, ६७) । l) वस. उप. = २दक्षिणा- । m) = विश्वामित्र-उत्त- । कस. । n) हिश्रौ. पाठः । o) वस. > दस. ।



१५, ५ : २२; हिश्रौ १५, १, ३८.  
 बहु-देवत, ता<sup>a</sup> -तः भाश्रौ ६, १५,  
 ९; -ताः आपश्रौ २४, ३, ४३;  
 वृदे १, ७५; -ताम् शाश्रौ ३, ६,  
 १; -तायाम् या ११, ११; १२,  
 ३२; -ते मीस् ९, ३, ४३; -तेषु  
 कागृ ४७, ११; वृदे ४, ७.  
 बहु-देवता->°वत्य, त्या- -त्यम्  
 अत्र १, २६; २, १३××; -त्या  
 शुअ ४, २२; अत्र ३, १६××;  
 -त्याः अत्र ३, २१; १२, ४३;  
 -त्याम् शुअ ४, ३५; -त्ये अत्र  
 १, ९; ३, १; ४, ४; ६, १०४.  
 बहु-दैव<sup>a</sup> -वे वृदे ३, ४१.  
 बहु-दैवत<sup>a</sup> -तः वृदे ६, ८४; -तम्  
 वृदे २, १२८; १३३; ३, ४३;  
 चाअ ८ : २; या १२, ४०; अत्र  
 ६, ४१; -तेषु वृदे ३, १२८.  
 बहु-द्वार<sup>a</sup> -रस्य वौध १, १, १३.  
 बहु-घा ऋआपश्रौ ७, ४, ५<sup>b</sup>; १७,  
 १३, २; वौश्रौ; हिश्रौ ४, १,  
 ६१<sup>b</sup>क; आपमं २, १, ८<sup>c</sup>क; हिगृ  
 २, ६, १२<sup>c</sup>क; या ७, ४; १८<sup>c</sup>क××.  
 बहु-धान्य<sup>d</sup> -न्यः आपश्रौ २२,  
 १६, ९; हिश्रौ १७, ६, ३३.  
 बहु-धान्य<sup>e</sup> -न्यम् कौसू २०,  
 ५<sup>f</sup>क.  
 बहु-धार<sup>f</sup> -रे या ५, २.  
 बहु-धी<sup>g</sup> -धीः या ६, १३.  
 बहु-नामन् -मानि निघ ३, १; या  
 ३, १३.  
 बहु-निष्क<sup>h</sup> -°नैष्किक- पावा ५,

१, ३०.  
 बहु-पक्ष्य(क्षि-अ)नावास<sup>b</sup> -सम्  
 वैश्रौ १, १ : ९.  
 बहु-प(त्रक>)त्रिका<sup>i</sup> -काम् वौपि  
 १, ४ : ७.  
 बहु-पर्ण, णा<sup>d</sup> -र्णः वौश्रौ ४, १ :  
 १६; वैश्रौ १०, १ : १३; -र्णम्  
 भाश्रौ ७, १ : ८; माश्रौ १, ८,  
 १, ४; हिश्रौ ४, १, १५; -र्णां  
 वौश्रौ १, १ : ९; भाश्रौ १, २, ९;  
 ७, ९, ९; -र्णाम् आपश्रौ १, १,  
 ८××; भाश्रौ.  
 बहु-पर्ण-शाख, खा<sup>i</sup> -खम् आपश्रौ  
 ७, १, १७<sup>k</sup>; -खाम् आपश्रौ ७,  
 १२, ५.  
 बहु-पलाश, शा<sup>a</sup> -शः निस् १, ११ :  
 १८; -शाम् वाश्रौ १, २, १, २.  
 बहु-पलाश-शा(खा>)खा<sup>a</sup> -  
 -खम् वाश्रौ १, ६, १, ७<sup>k</sup>.  
 बहु-पशु -शुम् भागृ १, ११ : ११;  
 -शू आपश्रौ २२, ६, ४; हिश्रौ  
 १७, २, ४९; -शोः पागृ १, २,  
 ३; गौध १८, २९.  
 बहु-पाद, दा<sup>a</sup> -दाः ऋप्रा १७, ४;  
 -दानाम् ऋप्रा १७, ४८; -दे  
 आपध १, ८, ९; हिध १, २, ९७.  
 बहु-पुत्र, त्रा<sup>a</sup> -त्रः भाश्रौ ४, २१,  
 ८; वैश्रौ ७, १३ : १२; हिश्रौ ६,  
 ४, २८; ६, १७; आपध २, १६,  
 २०<sup>l</sup>; -त्रस्य शंघ २८<sup>l</sup>; -त्राः  
 मागृ १, १२, ३<sup>l</sup>क.  
 बहुपुत्री<sup>m</sup> -त्रीम् आमिगृ ३,

५, ५ : ७<sup>n</sup>.  
 बहु-पुष्ट<sup>o</sup> -ष्टः आपश्रौ ५, १४, १;  
 माश्रौ १, ६, १, ६; हिश्रौ ३, ४,  
 २३; गो १, २२; २, २४; -ष्टस्य  
 माश्रौ ५, १, ९, १६.  
 बहु-पूरुष<sup>d</sup> -पम् कौसू २०, ५<sup>f</sup>क.  
 बहु-प्रकार<sup>a</sup> -रे वृदे १, १९.  
 बहु-प्रकृति<sup>a</sup> -तिः पावा २, ४, १२;  
 -तौ शुप्रा ५, ७.  
 बहु-प्रजस्<sup>d</sup> -जाः या २, ८; पा  
 ५, ४, १२३.  
 बहु-प्रधा(न>)ना<sup>a</sup> -नाः वृदे ४,  
 ८.  
 बहु-भक्ति-वादिन् -दीनि या ७,  
 २४<sup>f</sup>क.  
 बहु-भा(र्या >)र्य<sup>a</sup> -र्यस्य  
 आपश्रौ १६, ४, ५; हिश्रौ ११,  
 १, ४८; कप्र ३, १, ४.  
 बहु-भार्या -र्यासु विघ २६, १.  
 बहु-भाषिन् (>वाहुभाष्य- पा.)  
 पाग ५, १, १२४.  
 बहु-भोक्त् -क्तुः कप्र २, ५, २.  
 बहु-भो(ग>)गा<sup>a</sup> -गा आज्यो  
 १३, १०.  
 बहु-मत्स्य<sup>a</sup> -त्स्ये कौसू ४७, ३७.  
 बहु-मध्य-गत -तानि ऋप्रा १०,  
 ८; उस् ४, ७.  
 बहु-मन्त्र<sup>a</sup> -न्त्रम् आपश्रौ २४, १,  
 ४४;  
 बहु-माप-ति(त्त>)त्ता<sup>l</sup> -त्तायै  
 आपश्रौ २०, ४, ३; वौश्रौ १५, ५ :  
 २१; हिश्रौ १४, १, ३८.

- a) वस. । b) पाभे. वैप १, २०४५ h द्र. । c) पाभे. वैप २, ३खं. बहुधा तैत्रा २, ७, १७, ३ टि. द्र. ।  
 d) वैप १ द्र. । e) वैप १, २२७२ e द्र. । f) वस. (तु. वैप १ भूरिधारा-; वैतु. स्क., L पक्षे)। दु. उस.  
 इति। g) तु. पाका. । h) कस. >वस. । i) =ओपधि-विशेष-। वस. । j) वस. >द्वस. । k) सपा.  
 बहुपर्णशा<>बहुपलाशशा इति पाभे. । l) सपा. हिध २, ५, २० वहूपत्यः इति पाभे. । m) =ओपधि-  
 विशेष-। स्त्री. डीष् प्र. (पा ४, १, ६३) । n) पाठः? °पत्रीम् इति शोधः (तु. सप्र. वौपि १, ४ : ७ °पत्रिकाम्  
 इति पाभे.) । o) कस. ।

बहु-मित्र<sup>a</sup> - -त्रः आपघ २, १६,  
२०; हिघ २, ५, २०.

बहु-याजक- -कः शंघ ३७७: १४.  
बहु-याजिन्- -जिनः हिश्रौ २१, २,  
५; गोय १, १, १६; द्राय १, ५,  
५; विघ ८२, १२; -जिनम्  
आमिग २, ७, ११: ११;  
-जिनाम् वाधुश्रौ ३, २४: १३;  
-जी आपश्रौ ११, २०, ११;  
१२; वौश्रौ.

बहु-याज्य<sup>b</sup> - -ज्यस्य वाघ १४, १७.  
बहु-र[=ल]<sup>c</sup> -> -मध्य- -ध्यम्<sup>d</sup>  
आश्रौ ५, १, १५१.

बहु-रथ<sup>e</sup> - -थः या ११, २३.  
बहु-रायस्पो (प>)षा<sup>f</sup> - -षायै  
आपश्रौ २०, ४, ३; वौश्रौ १५,  
५: २२; हिश्रौ १४, १, ३८.

बहु-रुद्र-देवता-> -त्व, त्या-  
-त्याः शुअ २, २५९; २६५;  
-त्वानि शुअ २, २६०.

बहु-रूप, पा<sup>g</sup> - -पः कौस् १२७, २;  
-पम् शाश्रौ १२, ४, १; काश्रौ  
२५, १०, १; आपश्रौ ९, १९, १५;  
१४, २४, १; वौश्रौ; -पा आपश्रौ  
१३, २३, १२; कौस् १२६, ५;  
-पाः काश्रौ २०, ४, २६; आपश्रौ  
८, १३, १९; २०, १४, ७१<sup>h</sup>;  
१२१; १५, ३१<sup>h</sup>; वौश्रौ ५,  
११: १६; वाधुश्रौ ३, ३२: ३;  
वैश्रौ ९, ५: ५; बहिश्रौ<sup>i</sup> १४,  
३, १६; १८<sup>h</sup>; आमिग २, ५, ३:  
२६१; वौय ३, ७: १९; या  
११, १७; -पाम् हिश्रौ ९, ६,  
१५; -पे अघ ७२, १, ४.  
बहु-रूप-क- -कैः अघ ५४, २, ५;

५५, १, ६.

बहु-रूप-त्व- -त्वम् वृदे ६, ५५.  
बहु-ल, ला<sup>j</sup> - -पाग ४, २, ७५; ५,  
१, १२२; १२३; १२३; -लः  
अघ ६२, २, २; -लम्<sup>k</sup> शाश्रौ  
१५, १७, ११; १७, ६, ५; काश्रौ  
२, ७, २०; आपश्रौ २, ९, २××;  
वौश्रौ; पा २, १, ३२; ५७××:  
-लं आपश्रौ १६, १४, ५; वाश्रौ  
२, १, ५, २०; वैश्रौ १८, १२:  
१३; निस् २, १०: २२९; -ला:  
बिआपश्रौ १, ५, ५; १२, ११;  
१४; भाश्रौ; -लान् अप्रा ३, ४,  
११<sup>h</sup>; -लानि सु २५, ६; कौशि  
३०; -लाम् शाश्रौ ४, १३, ११;  
आपश्रौ ६, ११, ५१; वौश्रौ;  
-लायाम् अघ ५९, १, १२; -ले  
वौश्रौ ६, ३०: २; तैप्रा ४, ११;  
निघ ३, ३०१.

बाहुल- पा ४, २, ७५.

बाहुलक- पा ५, १, १३३.

बाहुल्य- पा ५, १, १२३;  
-ल्ये पा २, ४, २२.

बहुल-तम- -मः वाधुश्रौ ४,  
८४: ११.

बहुल-न्ता- पा ५, १, १२३.

बहुल-तृण<sup>l</sup> - -णे काश्रौ २५, ७,  
१५.

बहुल-त्व- पा ५, १, १२३.

बहुल-पर्ण<sup>m</sup> - -र्णम् काश्रौ ६, १,  
८.

बहुल-पला(श>)शा<sup>n</sup> - -शाम्  
काश्रौ ४, २, ४.

बहुल-वचन- -नस्य पावा २, १,  
५८; ६, ३, १३; -नात् पावा ८,

३, ५९.

बहुल-वर्मन्<sup>o</sup> - -र्मा शाश्रौ ८,  
२४, ११.

बहुला(ल-अ)भिमान<sup>p</sup> - -नः  
हिश्रौ ९, २, २४१.

बहुलिमन्- पा ५, १, १२३.

बहुलौ(ल-ओ)वधि<sup>q</sup> - -धि वौश्रौ  
२५, ५: ३; वौषि ३, २, ८.

बहुलौषधि-क- -कम् आग  
४, १, १३.

बहु-वचन- -नम् या ४, ३; १२, ७;  
अप्रा १, २, १; २, २, ५<sup>r</sup>; शौव  
१, ७८; पा १, २, ५८; ४, २१;  
८, १, ७४; -नस्य पा १, २,  
६३; ८, १, २१; पावा १, २, ५१;  
-नात् द्राश्रौ १२, ३, ६; मीस्  
११, ४, ५३; -नानि माश्रौ ५,  
२, ९, ४; -ने पा ४, ३, १००;  
पा, पावा ७, ३, १०३; ८, २, ८१;  
-नेन या ११, १६; मीस् ११,  
१, ३८.

बहुवचन-लोप-> -लोपिन्-  
-पिप् पावा ४, १, १६३.

बहुवचन-विषय- -यात् पा ४,  
२, १२५; पावा ४, २, ५२.

बहुवचना(न-अ)न्त- -न्तस्य  
पावा २, ४, ६३; ४, १, ८९; ८, २,  
८१.

बहु-वत् आश्रौ ५, ४, ७; शाश्रौ;  
या २, २४<sup>s</sup>; २७; ११, १६; पा  
१, २, ५८.

बहु-व(त् >)ती- -ती वाश्रौ ३, २,  
६, ३९.

बहु-वर्ष-द- -दः अघ ३६, २२, १;  
६५, ३, ३.

a) वस. । b) उस. उप. कर्त्तरि ण्यत् प्र. उत्सं. (पा ३, ४, ६८) । c) वैप २, ३३. द्र. ।

d) पामे. वैप २, ३३. ऐत्रा २, २० टि. द्र. । e) पामे. वैप १, २०१८ द्र. । f) वैप १ द्र. । g) क्वचित् वा.

क्वि. । h) पामे. वैप १, २२७२ u द्र. । i) =यावापृथिवी- ।

बहु-वारि-भय- -यम् अप ५२, १,  
१२.

बहु-विक्षेप<sup>३</sup>- -पम् या ६,३३.

बहु-विद्<sup>४</sup>- -वित् आश्रौ ३, १२,  
१६; आपश्रौ ९,७,१; १०; ९,६;  
माश्रौ; -विदः वौश्रौ १९,४:३६;  
-विदम् माश्रौ ५,२,१४, २२;  
-विदा शाश्रौ ३, १९, ९; -विदे  
वैश्रौ २१, १ : ११.

बहुवित्-तम- -मः वाधूश्रौ ४,  
८४ : १२.

बहु-विध<sup>५</sup>- -धम् वृदे ५, ६३;  
कौशि ७०; -धाः वैध १, ८,  
१; कौशि २४; -धान् अप ६२,  
१, १; -धैः कप्र ३, १, १०; अप  
६८, ५, २२; ७०, ८, ५.

बहु-व्याल-मृग<sup>६</sup>- -गे शंघ ४४३.

बहु-व्रीहि<sup>७</sup>- -हिः वृदे २, १०५; पा  
२, २, २३; पावा; -हेः पा ४, १,  
१२; २५; ५८; पावा; -हौ  
पा १, १, २८; २९; २, २, ३५;  
५, ४, ७३; ११३; ६, १, १४; २,  
१०६; १३८; १६२; १९७; पावा.  
बहुव्रीहि-कृत-त्व- -त्वात् पावा  
२, १, २४.

बहुव्रीहि-ग्रहण- -णम् पावा ५,  
४, ६९.

बहुव्रीहि-निर्देश- -शः पावा ३,  
२, १११; ६, १, १; १८६; १९०;  
-शात् पावा ६, ३, ८१; -शे  
पावा ६, १, १.

बहुव्रीहि-प्रतिषेध- -धः पावा  
१, ४, १; -धे पावा ४, १, ७.

बहुव्रीहि-वत् पा ८, १, ९;  
पावा २, १, ५१.

बहुव्रीहिवत्-त्व- -त्वे पावा  
८, १, ९.

बहुव्रीह्य(हि-अ)घिकार- -रात्  
पावा ४, १, ५४.

बहुव्रीह्य(हि-अ)थं- -थम् पावा  
१, ४, १.

बहु-व्रीहि-य(व>)वा<sup>८</sup>- -वायै  
आपश्रौ २०, ४, ३; वौश्रौ १५,  
५ : २१; हिश्रौ १४, १, ३८.

बहु-शब्द- -ब्दान् द्राश्रौ ४, २, १९;  
लाश्रौ २, २, २७.

बहु-शस्(ः) वैश्रौ २०, ३१ : ४;  
जैश्रौका १७७; कौस्.

बहु-शस्त्र-भङ्ग- -ङ्गः अप ७२, ३,  
१०.

बहु-शास्त्र, खा<sup>९</sup>- -खः वौश्रौ ४, १ :  
१६; वैश्रौ १०, १ : १३; -खम्  
माश्रौ ७, १, ८; माश्रौ; -खाम्  
आपश्रौ १, १, ८; ९; माश्रौ.

बहु-शि(खा>)ख<sup>१०</sup>- -खाः भाग्य १,  
२८ : ३१.

बहु-शीर्ष<sup>११</sup>- -र्षाः अप ७०<sup>३</sup>, ४, ४.  
बहु-शृङ्ग<sup>१२</sup>- -ङ्गाः या २, ७.

बहु-श्रुत<sup>१३</sup>- -तः वाध ३, ९; शंघ;  
-तम् वाध ६, ४४; विध ५, १८९;  
-ताय वाध ३, ९; -तैः वौध २,  
१०, ५७.

बाहुश्रुत्य- -त्येन वृदे ८, १३०.  
बहु-श्रुति<sup>१४</sup>- -ति भाशि ७६.

बहु-श्रुति- -तेः काश्रौ २४, ५,  
२२; द्राश्रौ १२, २, १७; लाश्रौ  
४, १०, १८; मीस् ३, ७, २६.

बहु-संवत्सर<sup>१५</sup>- -रे शाश्रौ १३, २७,  
५.

बहु-सदृश- -शम् लुस् ३, ३ : १३;

४ : ११.

बहु-सदृशी- -श्यः क्षुस् ३, ७ : ९.

बहु-संभा(र>)रा<sup>१६</sup>- -राम् अप  
७२, ५, २.

बहु-सर्पिण्क<sup>१७</sup>- -ण्कम् विध ८६, १८.

बहु-सर्व-ध(न>)ना- -नायै वौश्रौ  
१५, ५ : २३१.

बहु-सुवर्णक<sup>१८</sup>- -के काशु ७, २९.

बहु-सुव(र>)री<sup>१९</sup>- -री आमिग्य  
२, १, ५ : १९; ऋप्रा ५, २७;  
-रीः हिग्य १, १८, २.

बहु-स्वर<sup>२०</sup>- -स्य तैप्रा ४, ४०.

बहु-स्वार<sup>२१</sup>- -रः याशि १, ८२<sup>०</sup>.

बहु-हस्ति(क>)का<sup>२२</sup>- -कायै  
आपश्रौ २०, ४, ३; वौश्रौ १५, ५ :  
२२; हिश्रौ १४, १, ३८.

बहु-हिरण्य, ण्या<sup>२३</sup>- -ण्यः काश्रौ २२,  
८, २५; -ण्यमायै आपश्रौ २०,  
४, ३; वौश्रौ १५, ५ : २१; हिश्रौ  
१४, १, ३८; -ण्येन आपश्रौ २२,  
९, १९; हिश्रौ १७, ४, १४.

बहु(हु-उ)दक, का<sup>२४</sup>- -का या ११,  
४०; -काः वैध<sup>२५</sup> १, ९, १; ३;  
या ५, ६.

बहु(हु-ऊन>)ना- -नाः ऋअ १,  
३, ९; शुअ ५, ९.

बहु(हु-ऊ)र्ज<sup>२६</sup>- -हूर्जि पावा ७, १,  
७२.

बहु(हु-अ)चर<sup>२७</sup>- -रम् ऋप्रा १४,  
४३.

बहु(हु-अ)क्षरा(र-अ)न्त्य<sup>२८</sup>- -न्त्यैः  
ऋप्रा ५, १२.

बहु(हु-अ)च्- -ह्वचः पा २, ४,  
६६x४; पावा ६, २, ८२.

बहुच्-पूर्वपद<sup>२९</sup>- -दात् पा ४,

a) वस. ।

b) वैप १ द्र. ।

c) वस. > द्रस. ।

d) नाप. (समास-भेद-) । वस. ? ।

e) सर्वो बहुस्वारः इत्यस्य स्थाने सपा. नाशि २, १, ४ सर्वबहु<sup>३</sup> इति पाये. ।

g) कस>वस. ।

f) नाप. (वानप्रस्थ-विशेष-) ।

४,६४; पावा ६,१,८४.  
 बहुन्-अङ्ग<sup>३</sup>- -ज्ञात् पा ४, २,  
 ७२.  
 बहुन्-अर्थ<sup>३</sup>- -र्थम् पावा ४, १,  
 ५४.  
 बहु(हु-अ)जा( जा-अ) वि(क>)  
 का<sup>३</sup>- -कायै आपश्चौ २०, ४, ३;  
 वौश्रौ १५, ५ : २०; हिश्रौ १४,  
 १, ३८.  
 बहु(हु-अ)ध्याय<sup>३</sup>- पा ६, २, १७६.  
 बहु(हु-अ)त्र<sup>३</sup>- -त्रे वैध २, १५, ४.  
 बहु(हु-अ)त्र,त्रा<sup>३</sup>- -त्रम् आश्र २,  
 ७, ९; -त्राम् अप ७२, ५, २.  
 बहु(हु-अ)त्र-दक्षिण,णा<sup>३</sup>- -णः अप  
 ७०<sup>३</sup>, ४, १; -णाम् अप ७०<sup>३</sup>,  
 १३, १.  
 बहु(हु-अ)पत्य<sup>३</sup>- -त्यः आपघ २,  
 १६, १२; हिघ २, ५, १२; २०<sup>६</sup>;  
 -त्यस्य शंघ ७४; -त्याः वाश्रौ  
 १, १, १, २३.  
 बहु(हु-अ)भिधान<sup>३</sup>-ज- -जः ऋप्रा  
 १३, २२.  
 बहु(हु-अ)र्व<sup>३</sup>- -र्वम् हिश्रौ ७, २,  
 ६११.  
 बहु(हु-अ)र्थ-त्व- -त्वात् पावा २,  
 ४, ६२; मीसू ६, ७, २४; ११,  
 १, ४९.  
 बहु(हु-अ)त्पा(त्प-अ)र्थ- -र्थस्य  
 पावा ६, ३, ३४; -र्थात् पा, पावा  
 ५, ४, ४२.  
 बहु(हु-अ)श्च(श्च-अ)श्च<sup>३</sup>- -श्चयै  
 आपश्चौ २०, ४, ३; वौश्रौ १५,

५ : २०; हिश्रौ १४, १, ३८.  
 बहु(हु-अ)कार<sup>३</sup>- -रः अप ५३, ५,  
 १.  
 बहु(हु-अ)ज्य<sup>३</sup>- -ज्याभ्याम्  
 आपश्चौ २, ५, ११.  
 बहु(हु-अ)व्य-तर->रा (र-अ)  
 घ(दि-अ)र्थ- -र्थः पावा २, १,  
 ६९.  
 बहु(हु-अ)दि- -दीनाम् पावा १,  
 १, २३.  
 बहु(हु-अ)प्- -ह्रापः वैध ३, ४,  
 ११.  
 बहु(हु-अ)शिन्->शिशुर्भग-  
 गाः अप ६८, १, १०.  
 बहु(हु-ई)ति(क>)का<sup>३</sup>- -का अप  
 ५९, १, ६; १५.  
 बहु(हु-ऋ)च्<sup>३</sup>- -ह्रचाम् आशिगृ ३,  
 ७, ४ : ९; वौषि २, ३, १८<sup>१</sup>.  
 बहु(हु-ऋ)च<sup>३</sup>- -चः अप २, २, ४;  
 ४, ३; ४; शंघ २००; -चम्  
 अप ३, ३, ३; अज १९, १<sup>१</sup>;  
 -चाः आपश्चौ ६, २७, २; १३,  
 २४, १०; निसू १, २ : १४; २,  
 २ : ८x४; साश्र २, ६५६; शैशि  
 ३३९; -चानाम् पाश्र २, १०,  
 १९; ऋश्र ३, २; -चैः ऋज ३,  
 १४.  
 बाहुच्य- पा ४, ३, १२९;  
 -च्यम् शाश्रौ १, १, १५.  
 बहुच-ब्राह्मण<sup>३</sup>- -णम् आपश्चौ १,  
 २०, १०; ५, १५, १; ६, १३, ९;  
 १५, १६; ३१, १३; ८, ५, २; ११

२, १०; १२, १७, २; १८, ८, ७.  
 बहुच-वाजसनेयिन्- -यिनाम्  
 आपश्चौ ८, १५, १२.  
 बहु(हु-ए)क-घातु-ज- -जम् वृदे  
 २, १०३.  
 बहु(हु-ओ)पधिक<sup>३</sup>- -के कौश्र १,  
 २१, २१; ?शाश्रौ १, २८, २३;  
 ४, ६, ३.  
 बहुकीट- ( > बाहुकीट- पा. ) पाग  
 ४, २, ११०<sup>म</sup>.  
 बहु-ल- बहु-द्र.  
 बहुल<sup>३</sup>- -लः भाश्र २, १५ : २;  
 -लस्य अप ५०, ९, ५; -ले  
 वेज्यो ९.  
 बहुला<sup>३</sup>- ( > बहुल- पा. ) पा ४, ३,  
 ३४.  
 बहुलिमन्- बहु-द्र.  
 बहुदरि<sup>३</sup>- -रयः वौश्रौ ४३ : ५.  
 बहुदंवि १, ९१.  
 वाकायन- १वक-द्र.  
 वाह् वाद् द्र.  
 वाह् पाधा. भ्वा. आत्म. आसाव्ये.  
 वाडव- वडवा-द्र.  
 वाह् (< वाह् ) > वाह<sup>३</sup>- पा  
 ७, २, १८.  
 शवाण<sup>३</sup>- पाग २, ४, ३१<sup>६</sup>; -णः आपमं  
 १, १२, ९१; सु २३, २; कौश्र १,  
 १२, ६१; शाश्र १, १९, ६१; हिश्र  
 १, २५, ११; -णम् वौश्रौ २२,  
 ५ : १०; जैश्र २, ९ : १२; कौसू  
 ३५, ३; -णाः आश्र ३, १२,  
 १९१; भाश्र १, २८ : २१; अप

a) वस. । b) वस. > वस. । c) कष. । d) कस. > वस. उप. = २दक्षिणा- । e) पाभे. पृ १७९९ । द्र. ।  
 f) = बहुवचन- । g) वैप १६. । h) वस. उप. समासान्तस्य प्र. अभावः उंसं. ( पा ५, ४, ७४ ) । i) बहुवृ-  
 चानाम् इति R. । j) अन्ध्येतर्यपि समासान्ताः लः प्र. उंसं. ( पा ५, ४, ७४ ) । k) उप. = २शास्त्रण- ।  
 l) बहु<sup>३</sup> इति पाठः ? यनि. शोधः ( तु. कौश्र. ) । m) बाहु<sup>३</sup> इति पाठा. । n) = कृष्ण-पक्ष- । व्यु. ? ।  
 o) = कृत्तिक-नक्षत्र- ( तु. वापाभा. ) । p) = ऋषि-विशेष- । q) तु. वैप १, ४५६ ८ । r) वैप १ निर्दिष्टानां  
 समावेशः द्र. । s) तु. पाठा. । वारवाण- इति भाश्र. प्रम्. ।

७०<sup>३</sup>, २१, ५; ७१, १४, ४; उन्सू  
 ७ : ३१†; -णे दंवि १, ५†.  
 वाणL,णा<sup>१</sup>प(री>)णी<sup>b</sup>-णीम्  
 कौसू ३६, १९; ३८; अत्र ३, १८.  
 वाण-सुख- -खम् सु २३, १.  
 वाण-वत्- -वत् वौश्रौ १०, २३ :  
 १७; २३; -वत्तः आपश्रौ १८,  
 १४, ११; वाश्रौ ३, ३, २, ३९;  
 -वद्भिः शाश्रौ १४, २२, ११;  
 वौश्रौ १८, २४ : ८; -वन्तः  
 काश्रौ २२, १०, २५; आपश्रौ  
 १८, १०, २७; २२, ४, २२; माश्रौ  
 ५, १, ९, १८; हिश्रौ १३, ४, १३;  
 -†वान् तैप्रा ९, २१; १३, ९.  
 वाणा(ण-आ)कार<sup>c</sup>- -रम् आमिण्य  
 २, ५, १ : १८.  
 वाणौ(ण-ओ)व- -वैः विघ ४३, ४२.  
 र्वा,वा<sup>d</sup>ण<sup>e</sup>- -०ण द्राश्रौ ११, १,  
 ५; ६; लाश्रौ ४, १, ५; ६; -णः  
 आपश्रौ २१, १७, १०; वौश्रौ  
 २३, ११ : २८; हिश्रौ १६, ६, ९;  
 तैप्रा १३, १२†; भाशि ६३†;  
 -णम् आपश्रौ २१, १८, ९; वौश्रौ  
 १६, २० : ५; २१ : ५; वाश्रौ  
 ३, २, ५, २५; द्राश्रौ ११, १, १०;  
 दंवि २, ८†; -णस्य द्राश्रौ १०,  
 ४, १५<sup>२</sup>; लाश्रौ ३, १२, १५<sup>२</sup>;  
 -णेन काश्रौ १३, २, २५; हिश्रौ  
 १६, ६, १५.  
 वाण-भेरी-सुदङ्ग-गर्ता(र्त-आ)र्त<sup>f</sup>-  
 शब्द- -न्देषु गौध १६, ७.  
 वाण-शब्द- -न्दम् माण्य १, १०,  
 ७†; -न्दे कौग ३, ९, २६; वाघ

१३, २१.  
 ?वाणाकर्णी- ऋत ५, १, ३.  
 वादर- प्रमृ. १वदर- द्र.  
 वादरायण- प्रमृ. २वदर- द्र.  
 वाद्धकायन-, वाद्धकि- १वद्धक- द्र.  
 √वाध् पाधा. भ्वा. आत्म. लोडने,  
 †वाघते आश्रौ ८, १०, ३; शाश्रौ  
 १०, ११, ९; १२, २४, २; आपसं  
 १, १५, १; वाघन्ते शाश्रौ २, ८,  
 ६†; जैग २, ६ : ११; आमिण्य  
 २, ५, ९ : १३; वाघसे आगृ ३,  
 ७, १†; †वाघे शाश्रौ २, ८, ६;  
 दंवि १, ८; वाघताम् माण्य २,  
 १८, २†; †वाघन्ताम्<sup>g</sup> आपसं  
 २, २२, ११; भाग्य २, ३० : १५;  
 हिगृ १, १६, ७; †वाघस्व आपश्रौ  
 ७, ६, ७; वौश्रौ ८, १९ : १५;  
 वैश्रौ १०, ६ : ३; वाघध्वम् वौश्रौ  
 १२, ९ : २३; लवाघन्त भाशि  
 ५१†.  
 वाध्यते अप ७०<sup>३</sup>, २, ४; मीसू  
 ३, ३, ८; वाध्यन्ते अप ५१, ५,  
 १; २; विघ ४३, ४१.  
 वाघ- -घः कप्र ३, ९, १६; अप  
 ४८, १०३†<sup>h</sup>; निघ २, ९†<sup>h</sup>.  
 र्वाघक- -कस्य पावा ३, १, ९४.  
 वाघक-वाघना(न-अ)र्थ- -र्थम्  
 पावा ३, ३, ४३; ४४.  
 वाघक-विषय- -ये पावा ३, १,  
 ९४.  
 †वाघमान,ना- -ः<sup>i</sup> आपश्रौ १६,  
 १६, १; वैश्रौ १८, १४ : ८;  
 -नाम् माण्य १, १४, १६<sup>j</sup>.

वाघित- -त्म् कप्र ३, ९, १६.  
 वाघित-त्व- -त्वात् पावा १, १,  
 ४४.  
 वाधितुम् वृदे ७, ५४.  
 बाध्य- -ध्यः आपघ २, २६, १८; २८,  
 १०; हिध २, ५, २१३; ६, १०.  
 बाध्यमान- -नाः वृदे ७, ५५.  
 श्रवाधक- प्रमृ. वधक- द्र.  
 र्वाधक- √वाध् द्र.  
 ?वाधकाशाघयेन<sup>k</sup> अप २४, १, ६.  
 वाधकी- वधक- द्र.  
 †वाघते<sup>l</sup> अप्राय ४, १.  
 वाधिरक- र्वाधिर- द्र.  
 वाधिरिक- वधिरिका- द्र.  
 वाधिर्य- √वध् द्र.  
 वान्धकायन-, °कि-, °किनेय-, °केय-  
 वन्धक- द्र.  
 वान्धव- प्रमृ. √वध् द्र.  
 वान्धवायनि- र्वाध्नु- द्र.  
 वान्धायनि- वन्धा- द्र.  
 वान्धुक्य<sup>m</sup>- -न्याः वौश्रौप्र १५ : २.  
 वान्धुपत-, वान्धुमैत्रिक-, वावध्य-  
 मान- √वध् द्र.  
 वाभ्रव-, °व्य-, °व्यक- र्वाभ्रु- द्र.  
 वाभ्रुक- १वभ्रु- द्र.  
 वार्वर- प्रमृ. वर्वर- द्र.  
 वार्ह<sup>n</sup>- -र्हाः वौश्रौप्र ३ : ३.  
 वार्हत-, °र्हदग्न- प्रमृ. √वृह् द्र.  
 वार्हस्पत्य- वृहस्पति- द्र.  
 †वाल्<sup>o</sup> आपश्रौ ९, १९, ४; वौश्रौ १४,  
 १४ : २२; वैश्रौ.  
 श्रवाल,ला<sup>p</sup>- पाग ५, १, १२२; १२३;  
 १२८<sup>o</sup>; -लः कप्र २, २, ९; अप

a) कौसू. पाठः । b) नाप. (ओपधि विशेष- ) । वस. । c) वस. उप. = २आकार- । d) आपश्रौ. हिश्रौ.  
 गौध. द्राश्रौ. प्रमृ. पाठः । e) नाप. (वीणा-विशेष- ) । f) गर्त- = रथ- इति भाष्यम् । g) पामे. वैप १ (परि.)  
 नुदन्तु शौ ६, १२४, २ टि. द्र. । h) = १वल- । i) वैप १, २२७४ व द्र. । j) पामे. वैप १, १७८७ h  
 द्र. । k) पाठः ? । °कसाघनेन इति संस्कृतुः टि. । l) पाठः ? । सपा. ऋ १, २५, २१ जीवसे इति पामे. ।  
 m) = ऋषि-विशेष- । n) वैप १ द्र. । o) वा L,वाJ लमन्द- इति पाणि. ।

२,१,५<sup>३</sup>; शंघ ३५६; विघ ५४,  
३३; या ६,३१;२,१००<sup>३</sup>; -लम्  
वैगृ ३, २२ : ७; कप्र २,२, ९;  
-लस्य वैगृ ५, १० : १; अशां  
१७,५; शंघ २३; याशि १,७४;  
-ला अप ७०<sup>३</sup>,७,३; वाघ १७,  
७४; -ला: कौगृ ३, १०, ३५;  
शांगृ २, १६, ४; आम्रिगृ २,५,  
९ : ११; जैगृ २, ६ : ९; वृदे  
४, १२०; -लान् कौगृ ३, १०,  
२४<sup>३</sup>; गोगृ ४,८,३१; अप ५३,  
२, ३; आपघ २, ४, १२<sup>३</sup>;  
-लानाम् आम्रिगृ २,४,६ : ४२;  
अप ६४,१०,२; ६५,२,९;७०<sup>३</sup>,  
८, २<sup>३</sup>; शंघ ३००; ३०१; बौघ  
४,५,७; -लै आम्रिगृ ३,७,४ :  
३; बौपि २, ३, ८; शंघ; -लेन  
वैगृ ६,५ : २; -लै: बौश्रौ २७,  
११ : १६; १९; वाघ ३,४५.

१वालक- कान् विघ ६८,२५.  
वालक-प्रव्रजित-वृद्ध- द्वैभ्यः  
शंघ ७८.  
वालकृत- -तम् वैगृ १,२१;१०<sup>३</sup>.  
वालग्रह<sup>०</sup>- हान् शंघ ११६ : २६.  
वालघ्न- -घ्नान् विघ ५४,३२.  
वालज्येष्ट<sup>०</sup>- -ष्टा: पागृ २,९,१३.  
वालतर- -रस्य शंघ ३९२.  
वालता- पा ५,१,१२३.  
वालस्व- पा ५, १, १२३; -त्वे  
अप ९,२,७; ३८,३,५.  
वालदेशान्तरित-प्रव्रजिता(त-अ)  
सपिण्ड- गडानाम् गौघ १४,  
४२.

वाल-धन- -नः वाघ १६, १८<sup>०</sup>;  
-नम् गौघ १०, ४५; -नानि  
शंघ ३००.  
वाल-धूर्त<sup>१</sup>- -र्तम् विघ ४८,२२<sup>६</sup>.  
वाल-बन्धन<sup>२</sup>- -नः<sup>३</sup> आपमं २,  
१६,१; पागृ १, १६, २४; भागृ  
२,७ : ७.  
वाल-भाव- -वात् वृदे ४,३.  
वाल-मानस-ग-ध्वान्त-> न्त-  
विपाटन-पटीय(स् >)सी-  
-सीम् जैश्रौका ५.  
वाल-वत्स- -त्सस्य याशि १,६९.  
वाल-वृत्त- -त्तम् बौघ ३,६,८<sup>३</sup>.  
वाल-वृद्ध- पाग २,४,४१<sup>६</sup>; -द्धान्  
बौघ २, ७, १९; -द्धानाम् अप  
२२, १०, ४; ४१,३, ९; -द्धौ  
विघ ५,१८९.  
वाल-वृद्ध-मत्तो(त-उ)न्मत्तो(त-उ)  
पहतदेह-भाराक्रान्त-स्त्री-स्ता-  
तक-प्रव्रजित- -तेभ्यः शंघ ८६.  
वाल-वृद्ध-रोगार्त-आ(न्त >)न्ता-  
-न्तः(?न्ताः<sup>१</sup>) शंघ १४५.  
वाल-वृद्धा(द्ध-आ)तुर- -रेषु वाघ  
२३,४३.  
वाल-वृद्धा(द्ध-अ)नाया(ध-आ)र्त-  
-आन्त- -न्तान् वैघ १,४,२<sup>३</sup>.  
वाल-व्याधिता(त-आ)र्त- -र्तैः विघ  
६३,१३.  
वाल-स्त्री-धन- -नानि शंघ ३००.  
वाल-स्त्री-परिगत- -नानि शंघ  
१६९.  
वाला(ल-आ)कृति<sup>०</sup>- -तिः अप  
५०,६,५.

वाला(ल-आ)तप- -पम् वैघ ३,  
३, १.  
वालातप-सेवा- -वाम् विघ ७१,  
४६.  
वाला(ल-अ)नाथ-स्त्री-धन- -नानि  
विघ ३,६५.  
वाला(ल-अ)र्क-बोधित-सरोरुह-  
-गर्म-गन्ध<sup>३</sup>- -न्धा: अप २४,  
६,२.  
वाला(ल-अ)र्क-वर्णा(र्ण-आभा  
>)म- -मः अप २९,१,५.  
वालिमन्- पा ५,१,१२३.  
वाल्य- पा ५, १, १२३; १२८;  
-रुपे आम्रिगृ २, ४, ५ : २३;  
अप ९,३,३; बौघ ४,७,८; विघ  
९६,३४.  
वाल्य-यौवन-वार्धक्य- -न्येषु  
विघ २५,१३.  
रवाल<sup>०</sup>- पाग ४,१,१५४.  
बालायन<sup>०</sup>- -नाः बौश्रौप्र ३ : ८;  
४७ : ३.  
बालायनि- पा ४,१,१५४.  
रवाल्य- -त्याः बौश्रौप्र ७ : २.  
रवालेय - -यः बौश्रौप्र ६ : १.  
रवाल- १वाल-द्र.  
रवालक- (>क्य-पा.) पाग ४-  
२,४९.  
वालखिल्य- वालखिल्य-द्र.  
वालन्दन<sup>०</sup>- -नस्य वाअ १६ : १६.  
वालव<sup>०</sup>- -वम् आज्यो ४, ५; ५,३;  
-वस्य आज्यो ५, १६.  
वालाकि- बलाक,का-द्र.  
वालाहक- बलाह-द्र.

a) सपा. शांगृ २,१४,२१ कुमारान् इति पाभे. । b) पाभे. पृ ८८३ p द्र. । c) = [वालपीठक-]  
अतुर-विशेष- । पस. वा उच. वा । d) वस. । e) मनुः ८, १५० 'नम्' इति । f) मत्तो. कञ. । g) सपा.  
वालधूर्तम् <> बालवृत्तम् इति पाभे. । h) = बाल-ग्रह- । उच. । i) पाभे. पृ १४४६ । द्र. । j) 'वृद्धम्  
इति मैसू. । k) तु. पागम. । l) पाठः ? यनि. शोघः । m) 'द्धाननायार्ताध्वथा' इति C. । n) कञ. >  
नृस. > कस. > पस. > वस. । o) व्यप. । p) फक् प्र. उचं. (पा ४,१,९९) । q) = करण-विशेष- ।

वालिश<sup>a</sup>- पाउभो २, ३, १४७; पाग ५, १, १२४; -शस्य या ४, २०.

वालिश्य- पा ५, १, १२४.

वालीवदिनेय- वलीवदी- द्र.

वालीवदिनेय- वलीवदी- द्र.

वालीवर्देय- वलीवर्दिन्- द्र.

१वालेय- १वलि- द्र.

२वालेय- २वलि- द्र.

वाल्वज- प्रमृ. वल्वज- द्र.

वाल्ही (ही)क<sup>b</sup>- पा, पाग ५, ३, ११७; -काः अप १, ७, ८;

-कान् अप ५०, २, ४.

वाष्क<sup>c</sup>- -कान् अप २०, १४, १०; हिश्रौ १४, ३, १७.

वाष्कय- वष्कय- द्र.

वाष्कल<sup>d</sup>- -ल्म् आगृ ३, ४, ४; शांगृ ४, १०, ३; -लाः वौश्रौप्र ८ : १; २१ : १; वृदे ८, ८५; चव्यू १ : ८.

वाष्कलक<sup>e</sup>- -कः ऋअ ३, २१; -के ऋअ ३, ३६.

वाष्कलेय- -यः वौश्रौप्र ६ : २.

वाप्प- पाउ ३, २८.

✓वाप्पाय पा ३, १, १६.

वास्त- १वस्त- द्र.

वास्तायन- २वस्त- द्र.

✓वाह् पाघा. भ्वा. आत्म. प्रयत्ने.

वाहव<sup>f</sup>- -वा आश्रौ ३, ८, १; शांश्रौ ८, १२, ८; ९, २७, २; काश्रौ.

वाहवि- २वाहु- द्र.

वाहिवेदिक- , ष्हिप्पवमानीय-, ष्हिक- वहिस्- द्र.

१वाहु<sup>g</sup>- पाउ १, २७; -हवः कौस्

१६, २१; अश्र ११, ९; अप ३ :

४८; ४ : २७; शुप्रा ४, ६४;

दंवि १, १२; -हः आश्रौ १२,

९, ७; शांश्रौ; -हुभ्याम् ऋआश्रौ

१, १३, १; ३, १, १६; १७;

शांश्रौ ४, ७, ५१; आपश्रौ;

-हुम् शांश्रौ १, ६, ५१; ४, १२,

१०१; १६, ७; आपश्रौ; या ४,

२०१; ९, १५; दंवि १, ८१;

-हुवोः आपश्रौ २०, १३, १२;

२२, २८, ९१; वौश्रौ; -हू आश्रौ

३, ३, ११; ९, ४; शांश्रौ ५, १७,

५१; आपश्रौ; -हून् माश्रौ ६,

१, ३, ३०१; वाश्रौ २, १, २,

२९१; द्राश्रौ ३, १, १०; लाश्रौ

१, ९, ११; -हौ आपश्रौ ७,

१३, ८; १२, ११, १०; हिश्रौ;

-ह्वोः शांश्रौ ४, १५, १३; काश्रौ;

माश्रौ ५, २, १५, २०१; वाश्रौ

१, १, ५, १९१; वैश्रौ.

१वाहु-क<sup>h</sup>- -कः वौध २, ३, ४६.

वाहु-कर- पा ३, २, २१.

वाहु-गृहीत- -तम् कौस् ५५, १६.

वाहु-च्युत<sup>i</sup>- -तः माश्रौ २, ४, २,

२९<sup>m</sup>; हिश्रौ ९, ५, ३६; वैताश्रौ

१६, १७<sup>m</sup>; २४, १.

वाहु-छेद- -दे अप ६८, २, १०.

वाहु-दाक्षिण्य- -ण्यात् निस् ७, ४ :

१६; ५ : ५.

वाहु-द्वय- -यम् विध ९६, ९०.

वाहु-नामन्- -म या ५, २५; -मानि

निघ २, ४; या ३, ८.

वाहु-प्रमाण- -णे वैश्रौ ११, ८ : ३.

वाहुप्रमाण-दण्ड<sup>j</sup>- -ण्डानि वैश्रौ

१३, ७ : १८.

वाहु-प्रशंसा- -सा मीस् ९, ४, २३.

वाहु-बल-> वलिन्- पावा ५, २,

१३५.

वाहु-मात्र,त्रा- -त्रम् शांश्रौ १७, १,

१०; माश्रौ; -त्रा कप्र १, ८,

१२; अप २२, २, ३; २३, ६, १;

-त्राः आपश्रौ १५, ५, १३१;

काठश्रौ; -त्राग् काश्रौ २, ८, १;

८, ५, १०; आपश्रौ; -त्रे माश्रौ

२, २, ३, ३५; ४, ४; -त्रौ वौश्रौ

२०, ३ : १०.

वाहुमात्री- -त्री आपश्रौ ६,

३, ६; -त्रीम् काश्रौ १७, ४,

१२; हिश्रौ ११, १, ११; -त्र्यः

काश्रौ १, ३, ३८; आपश्रौ १,

१५, १२; हिश्रौ १, ४, ३२; -त्र्या

कौस् ४७, २४.

वाहुमात्रा(त्र-अ)न्तर<sup>k</sup>- -रान्

माश्रौ २, २, ४, ४.

वाहुमात्रा(त्र-आ)याम- -मे

वैश्रौ ११, ७ : १०.

वाहु-मूल-सामान्य- -न्यात् या

२, २.

वाहु-वीर-> वी<sup>l</sup>- -वै दंवि १,

९१; -वैण वाध २६, १६.

वाहु-वृक्<sup>m</sup>- -क्तः ऋअ २, ५, ७१.

वाहु-संज्ञक<sup>n</sup>- -कम् अशां १, ५१.

वाहु(हु-अ)ङ्क<sup>o</sup>- -ङ्कैः दंवि १, ९१.

a) = मूर्ख- । व्यु. ? < बलिश- इति श्रमा., < १वाल- + ✓शी इति क्त. दु. [या.] । b) = आयुध- जीविसंघविशेष- (तु. वापाभा ४६१) । c) = एकहायन-वत्स- इति ?संस्कर्तुः सूची । व्यु. ? । d) पाभे. वैप १, २२६८ ४ द्र. । e) व्यप. । f) = [ऋवेदीय-] शाखा-विशेष-, तद्व्येत- वा । g) विप. ([वाष्कल-शाखाय-] क्रम-) । चरणेऽर्थे बुन् प्र. उंसं. (पा ४, ३, १२८) । h) वैप १ द्र. । i) पाभे. वैप १, २२७६ f द्र. । j) पाभे. वैप १, २२७६ d द्र. । k) तरत्यर्थे ठन् प्र. (पा ४, ४, ७) । l) सप्र. मनुः ४, ७७ वाहुभ्याम् इति । m) पाभे. वैप १, १२६८ ० द्र. । n) वस. । o) पूष. = आर्द्रा-नक्षत्र- ।

वाह(हु-अ)न्त- न्तात् पा ४, १, ६७.  
 रवाहु<sup>a</sup>- पाग ४, १, ९६; २, ८०<sup>b</sup>;  
 -हवः<sup>c</sup> वौश्रौप्र ४६ : २.  
 वाहवि- पा ४, १, ९६.  
 वाहवि-नागर्ग्य-गौतम-शाकल्य-  
 वाभ्रव्य-माण्डव्य-माण्डूकेय-  
 -याः आग्र ३, ४, ४.  
 रवाहु-क- पा ४, २, ८०<sup>d</sup>.  
 १वाहुक- १वाहु- द्र.  
 वाहुकीट- बहुकीट- द्र.  
 वाहुभाष्य- बहु- द्र.  
 वाहुमित्रायण<sup>e</sup>- णः वौश्रौप्र ३ : १३.  
 वाहुल-, लक- बहु- द्र.  
 वाहुलकि<sup>f</sup>- -क्यः वौश्रौप्र १९ : १.  
 वाहुल्य-, वाहुश्रुत्य- बहु- द्र.  
 वाह्य, ह्या- वहिस्- द्र.  
 वाह्यकि<sup>g</sup>- -क्यः वौश्रौप्र ३ : ४.  
 वाह्योग<sup>h</sup>- -गाः वौश्रौप्र १७ : २.  
 वाहृच्य- बहु- द्र.  
 √विट् पाधा. भ्वा. पर. आक्रोशे.  
 विठ<sup>i</sup>- ठम् या ६, ३०<sup>j</sup>कृ; -ठे या ६, ३०.  
 वि, वि<sup>k</sup>डाल<sup>l</sup>- पाठ १, ११८;  
 -लः पावा ३, २, ८४; -लानाम्  
 अप ६४, ७, ५.  
 विडाल-नकुल-काक- -कानाम् सुघ  
 ४३.  
 त्रिडाल-मत्स्य-मज<sup>m</sup>- -ज्ञानाम् अप

६४, ५, ४.  
 विडालो( ल-उ)लक- -कयोः अप  
 ६४, ६, ९.  
 विडाल-काक-नकुला(ल-आ)खू(खु-  
 उ)च्छिष्ट-भक्षण- -णे विघ  
 ५१, ४६.  
 विडाल-व्रत- > वैडालव्रतिक-  
 -कः विघ ९३, ८; -कान् विघ  
 ८२, ५; -के विघ ९३, ७.  
 वि, वि<sup>n</sup>ड<sup>o</sup>ड<sup>o</sup>- पाग ४, १, १०४;  
 ११०<sup>o</sup>; -दाः<sup>k</sup> वौश्रौप्र १ : ३;  
 ४ : १; ४; ५ : ५; -दानाम्<sup>k</sup>  
 आश्रौ १२, १०, ९; पा ४, १,  
 १०४.  
 वै, वै<sup>p</sup>ड- पाग ४, १, ७३; -०द्  
 वौश्रौप्र ४ : ५; -दः वौश्रौप्र  
 ४१ : १०.  
 वैदी- पा ४, १, ७३.  
 वै, वै<sup>q</sup>ड-त्रिरात्र<sup>m</sup>- -त्रः निस्  
 ८८ : २४; -त्रम् आश्रौ १०,  
 २, १०; -त्रे द्राश्रौ ४, १, १६;  
 लाश्रौ २, २, ४; ९, ७, ८; निस्  
 ३, ७ : ७; -त्रेण आपश्रौ २२,  
 १८, ४; हिश्रौ १७, ७, १.  
 वैद-स्वरसामन्<sup>r</sup>- -म्नोः  
 वैताश्रौ ४१, ४.  
 वै, वै<sup>s</sup>डायन- पा ४, १, ११०;  
 -नाः वौश्रौप्र ४३ : ४.  
 विद-वत् वौश्रौप्र ४ : ५.  
 विदल<sup>t</sup>- > वैदल<sup>u</sup>- -लः आपश्रौ

१९, ६, २; हिश्रौ २३, १, १११;  
 -लम् आपश्रौ १९, ६, ३; हिश्रौ  
 २३, १, १२.  
 वैदल-क- -कान् वौश्रौ २१,  
 २६ : ६.  
 √विन्द् पाधा. भ्वा. पर. अवयवे.  
 विन्द<sup>v</sup>- -न्दः या ६, ३२.  
 विन्दवि<sup>w</sup>- (> १विन्दवीच-)  
 रविन्दवीच- रविन्दु- द्र.  
 रविन्दु<sup>x</sup>- पाठभो २, १, १०; -न्दवः  
 आपध १, १६, १२; चौघ १, ५,  
 ८९<sup>y</sup>; विघ २३, ५४; हिघ १,  
 ५, ११; -न्दुः आपश्रौ १३, ९,  
 ९; वैश्रौ १६, ११ : ७; २६ : ५;  
 आपघ २३, ८; या २, १; दंवि २,  
 ३<sup>y</sup>; -न्दुना कौस् १३, ११;  
 -न्दुम् माश्रौ ३, ६, १२; -न्दून्  
 वौश्रौ ८, २० : १८.  
 विन्दु-मत्- -मत् काश्रौ २५, २, १०.  
 विन्दु-सिक्त- -क्तम् या १४, ३०<sup>z</sup>.  
 रविन्दु (वप्रा.)- पाग २, ४, ६७; ४, १,  
 १०४<sup>o</sup>; ५, ३, ११६<sup>o</sup>; -न्दवे काय  
 ४, २०<sup>o</sup>कृ; -न्दुः ऋम २, ८, ९४;  
 ९, ३०; साश्र १, १४९; १७४.  
 वैन्दव- पा २, ४, ६७; ४, १,  
 १०४.  
 रविन्दवीच- पा ५, ३, ११६.  
 विन्दुक<sup>z</sup>- -के विघ ८५, १२१.  
 विन्दुसरस्<sup>z</sup>- > रः प्रमुख<sup>z</sup>- -खानि  
 शंघ ११६ : ११<sup>z</sup>।

a) व्यप. । b) सङ्ख स्थूलवाहु- इति पाका. । c) बहु. <वाहवि- । d) = अन्तरिक्ष- ।  
 MW. निष्क- इति । e) पाठ. विघ. पाठः । f) = मार्जार- । व्यु. ? <√विट् (आक्रोशे) इति प्राथिकम् ।  
 g) मज्ज- = जलजन्तु- ? । h) वौश्रौप्र. निस्. पाठः । i) व्यप. । व्यु. ? <√विट्, न्द इति MW. ।  
 j) विदापुट- इति पाका. BPG. PW. प्रच. । k) बहु. <वैद- । l) निस्. वैताश्रौ. पाठः । m) = अहीन-  
 विशेष- । n) पू. = वैद-त्रिरात्र- । o) वौश्रौप्र. पाठः । p) = वंश-खण्ड- । व्यु. ? <√विट्, न्द, इति  
 वाच. PW. MW. । q) विकारार्थे प्र. । r) = इषु- । s) पृ ६९८ g द्र. । t) वैप १ द्र. । u) तु.  
 राज., शिवसं. । न्दुः सि<sup>o</sup> इति ल. ? । v) = आयुषर्जाविषयविशेष- । w) = देवता-विशेष- । x) = तीर्थ-  
 विशेष- । y) विल्वके इति जीसं. । z) वस. । a<sup>1</sup>) 'सराम्' इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. वीरमित्रोदयः [२, ३५६]) ।



विभीत [L, द<sup>a</sup>] क<sup>b</sup>- पाठभो २, २, २९;  
पाग ४, ३, १५४; -कः वाधूथौ  
४, ५९<sup>२</sup> : १.

वैभीत [L, द<sup>a</sup>] क- पा ४, ३, १५४;  
-कः आथौ ९, ७, ७; शांथौ १४,  
२२, १५.

विभीदक-तिल्वक-वाधक-नीव-  
निम्ब-राजवृक्ष-शालमलय (लि-अ)  
रलु-दधिर्ल्य-कोविदार-श्लेष्मात-  
क-वर्जम् गोग १, ५, १६.

विभेदादि- ✓भिद् द.

विभ्यत्- ✓भी द.

विभ्यस्यत्- ✓भ्यस् द.

विभ्युपी- ✓भी द.

विभ्रत्- ✓भ्र द.

श्विम्ब<sup>c</sup>- पाठ ४, ९५<sup>d</sup>; पाग २, ४,  
३१; ४, १, ४१; -म्बस्य<sup>e</sup> वैग  
४, ११ : १३; १६.

विम्बी<sup>f</sup> - पा ४, १, ४१.

विम्ब-क<sup>h</sup> - काः अप ५२, २, ३.

रविम्ब<sup>i</sup> - > वैम्बकि- पावा ४, १,  
९७; -कयः वौथौ प्र ४१ : ३.

✓विल् पाधा. तुदा. पर. भेदने; चुरा.  
पर. क्षेप.

श्विल<sup>j</sup> - लम् शांथौ १२, १७, ११<sup>k</sup>;  
काथौ १६, ४, ३; आपथौ २, ४, ४;  
६, १<sup>l</sup>; ७, ३ x x; वौथौ; -लयोः  
वैथौ १८, १८ : १३; -लात्  
आपथौ १६, ४, ११; अप २३,  
३, २; -लानि वौथौ २४, २७ :  
१५; १६; -ले शांथौ ५, ९, ८;  
आपथौ ७, १२, १४; १२, १६,  
११; २९, ९; १३, १०, १०;  
वैथौ; -लेन वौथौ ९, १ : ९;

१०, १ : ८; २५, २९ : १;  
वैथौ १३, ४ : १.

विल-ब्राह्म- -ह्यम् अप २३, ३, ३.

विल-वत्- वन्ति आमिष्ट १, १, १ :  
२८; भाग १, ३ : ४; हिष्ट १, १,  
२४.

विल-वासिन्- -सिनाम् अप ६५,  
२, ७.

विल-शब्द- -द्वे दंवि १, ५.

विला(ल-अ)र्ध- -र्धे अप २३,  
२, ४.

विलार्ध-तस्य (: ) अप २३, ३, ३.

विला(ल-अ)वका(श >)शा<sup>m</sup>-  
-शाम् भाथौ १०, ५, १२<sup>n</sup>;  
हिथौ ७, १, ४३.

विले-शय- -यः विध ४४; १३.

रविल-> विल-स- , वैलायन- ) पाग  
४, २, ८०<sup>o</sup>.

विलिश<sup>p</sup> - -शम् सु १७, २.

विल्म<sup>q</sup> - पाठभो २, २, २४३; -लम्  
या १, २०<sup>r</sup>.

विल्म-ग्रहण- -गाय या १, २०.

श्विल्व<sup>s</sup> - पाठ ४, ९५; पाग ४, २,  
८०<sup>t</sup>; ९१; ३, १३६; ६, ४, १५३;  
-ल्वः शांथौ १२, २४, २१<sup>u</sup>;  
वाधूथौ ४, ६४<sup>v</sup> : ८; वैथौ १०,  
१ : ११; अप २३, ६, ५; -ल्वम्  
अप ३३, ५, ८; या १, १४;  
-ल्वे विध ९९, १२; -ल्वैः  
अप ३१, ६, ४; शंघ ४४८.

श्वैल्व- पाग ४, ३, १३६;  
पाग ४, २, ८०<sup>m</sup>; -ल्वः शांथौ  
१५, १, १६; आपथौ १८, १, ८;  
वाधूथौ ४, ६४<sup>y</sup> : ८; वैथौ;

-ल्वम् आपथौ ७, १, १६; १२,  
१, १२; वौथौ ७, ६:४६; भाथौ;  
-ल्वः शांथौ १६, ३, २; १२, ३;  
आपथौ; -ल्वान् वौथौ १५,  
१४ : ३; २३ : १; वाथौ ३, ४,  
१, ५५; हिथौ १४, २, ४०;  
-ल्वानाम् वाधूथौ ३, ८१ : ५;  
-ल्वानि वौथौ १५, १४ : १;  
वाधूथौ ३, ७६ : ७; -ल्वे हिथौ  
१४, ५, ११; -ल्वेन काथौ ९,  
६, ११.

वैल्व-खादिर-पालाश- -शाः  
काथौ २०, ४, १९.

वैल्व-पालाश- -शौ गौध  
१, २४.

वैल्व-पालाश-खादिरा(र-  
आ)श्वल्य-वैल्वौ(व-थौ)दुम्बर-  
-राः शंघ ३६<sup>o</sup>.

श्वैल्वक- पा ४, २, ८०.

विल्वकीय- पा ४, २, ९१.

२श्वैल्वक- पा ६, ४, १५३.

विल्व-गुल्म-लता- -ताः आज्यो २,  
१०.

विल्व-गौरसरप- -पाः अप ३३, १,  
७.

विल्व-तण्डुल- -लैः वौध १, ५,  
३२.

विल्व-तस्य (: ) अप ३६, २, ४.

विल्व-पद्मो(झ-उ)पल- -लानाम्  
अप ७०, ४, ८.

विल्व-पलाश- -शयोः अप ३६, २,  
४.

विल्व-पलाश-खदिर-रोहीतको(क-  
उ)दुम्बर- -राणाम् वाथौ १, २,

a) शांथौ. गोग. पाठः। b) = वृत्त-विशेष- (नभा. वहेडा)। c) चप्रा.। व्यु. ?। d) < ✓वी।

e) = प्रतिमा-। f) वैप १ द.। g) = वनस्पति-विशेष- इति पागम.। h) स्वार्थे प्र.। i) व्यप.।

j) वस.। k) षाम् इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. हिथौ.)। l) = विल्डि-। व्यु. ? < वल्लिन्- + ✓शो

इति अभा.। m) वैप १, २२७८ k द.। n) वैल्व- इति पाका.। o) वि<sup>o</sup> इति पाठः ? यनि. शोघः।

१,३०; ६,१,५.

विल्व-प्रमाणक<sup>३</sup>- कान् कप्र १, ३,  
१४.

विल्व-मात्र- त्रम् गोगृ ४,१,१२.

विल्व-वृक्ष- क्षम् अप ३६,२१,१;  
-क्षस्य अप २६,५,२.

विल्व-शाखा- खायाम् वीगृ २,  
६ : १२.

विल्वा(ल्व-आ)कृति<sup>३</sup>- तिः अप  
२३,१,४.

विल्वा(ल्व-अ)द- दः या १, १४.

विल्वा(ल्व-आ)दि- दिषु पावा ४,  
३,१३४.

विल्वा(ल्व-अ)भ्यवहार- रेण विध  
४६,१६.

विल्वा(ल्व-आ)शिन्- शिनः वैध १,  
८,१.

विल्वा(ल्व-आ)हार<sup>३</sup>- रः अप ५,  
३,३.

रविल्व<sup>३</sup>- ल्वयोः हिश्रौ ११, ६,  
२८<sup>०</sup>.

विष्कला<sup>३</sup>- ल्ले अप ४८, ११६<sup>०</sup>;  
दंवि २,२.

विस<sup>३</sup>, विस्यति निघ २, १४<sup>०</sup>.

विस<sup>३</sup>- पाठभो २, ३, १७९; पाग ४,  
२, ८०<sup>३</sup>; ८६; ५, २, १३५;

-त्सम् या २, २४<sup>०</sup>; दंवि २,  
५; -सानि शंघ ४४८.

विस-खा<sup>३</sup>- खा या २, २४<sup>०</sup>.

विस-वत्- पा ४, २, ८६.

विसवती<sup>३</sup>- वल्यः वीश्रौ १८,  
४५ : २४.

विसा(ल्व-अ)भ्यवहार- रेण विध

४६,१५.

विसि(न् >)नी- पा ५, २, १३५.

विसिल- पा ४, २, ८०.

विसो(स-रु)र्णा- र्णायाः आपध १,  
२३, २; हिघ १, ६, १०.

विस्त- विस्त- द्र.

श्वीज<sup>३</sup>- पाठभो २, २, ८६; पाग ४,  
२, ८०; ५, १, २; २, १७<sup>३</sup>;

-जम् शाश्रौ १५, १७, १<sup>३</sup>;  
तुंआपश्रौ २०, ८, १३; १२, ८;

वौश्रौ; अप ४८, ८७<sup>३</sup>; निघ २,  
२<sup>३</sup>; -जम्-जम् वौश्रौ २५,  
३१ : ३; ७; भाश्रौ ६, १६,

२७; -जस्य आपध २, २, ४;  
हिघ २, १, २६; -जान् आमिगृ

२; ५, १२ : ३<sup>३</sup>; -जानि आपमं  
१, १३, २<sup>३</sup>; ३; कौगृ; -जे हिश्रौ

३, ८, ६९.

वीज-ग्रहण- णे आज्यो १२, १०.

वीज-निवपन- नम् आमिगृ २, ५,  
१२ : १.

वीज-पूर<sup>३</sup>- > र-क-> क-  
माप- -पम् सुघप ८८ : ५.

वीज-भेद- दे मीसू ११, ३, १४.

वीजरुहा<sup>३</sup> (> वीजरुहा/कृ पा.)  
पाग १, ४, ७४.

वीज-ल- पा ५, २, १७.

वीज-वत्- वतः आगृ २, १०, २.

वीज-वध- धम् गौघ ३, २३.

वीज-वपन-> नीय<sup>०</sup>- न्यस्य कागृ  
७१, ८.

वीज-वर- रम् सु ३, १.

वीज-वाप-> श्वैजवापि-> श्वैज-

वापीय- पा.) पाग ४, ३, १३१<sup>३</sup>;  
५, ३, ११६<sup>१</sup>.

वीज-वापिन्-> श्वैजवापि- पा.)  
पाग ४, २, ८०.

वीज-होम- मः वैश्रौ १, १२ : ११;  
१३ : १३.

वीजा/कृ पा ५, ४, ५८.

वीजा(ज-अ)र्थ- र्थाः आपध २,  
२४, ६; हिघ २, ५, १७१.

वीजिक- पा ४, २, ८०.

वीजिन्- जिनः वागृ १०, २; गौघ  
४, ४.

वीजि-क्षेत्रिक- कयोः शंघ  
२८९.

वीजो(ज-उ)पहरण- णम् कौसू  
२४, १.

वीजौ(ज-ओ)पधि-महाफल<sup>३</sup>- लः  
विघ १, ६.

वीज्य- पा ५, १, २.

श्वीज<sup>३</sup>-(> श्वैजेय- पा.) पाग ४, १,  
१२३.

वीभत्स- प्रयू. वध् द्र.

वीरिट<sup>३</sup>- टम् कृया ५, २७; २८;  
-त्टे निघ ४, २; या ५, २८;

-टेन या ६, ३०.

बुक-> बुकिन्- पा.) पाग ४, २,  
८०.

बुकक पाधा. भ्वा. पर. भपणे; चुरा.  
पर. भापणे.

बुजेबुजः दंवि २, ५.

बुद्बुद् पाधा. तुदा. पर. संवरणे.

बुद्बुद,दा<sup>३</sup>- पाठभो २, २, १७२;  
-दाः या १४, ६; -दाभिः

a) वस. । b) अर्थः व्यु. च? । c) पाभे. वैप १, २०-२१ दं द्र. । d) वैप १ द्र. । e) वि<sup>०</sup>

इति संस्कर्ता । f) या २, २४ परामृष्टः द्र. । g) धा. गती वृत्तिः । भेदने वा वृद्धौ वा वृत्तिरिति या. । h) विष्म-

इति पाका. । i) = पुष्करणी-विशेष- । j) पृ १११७ e द्र. । k) = अपत्य- । l) अर्थचार्दित्वम् उरसं. ।

m) = फल-विशेष- । नभा. अनार । n) वी<sup>०</sup> इति पाका. । o) = यज्ञ-विशेष- । तदस्यप्रयोजनमित्यर्थं छः प्र. ।

p) व्यप. । q) = आयुषजीविसंघविशेष- । r) द्रस. > वस. । s) तु. BPG. ।

आमिण् २,६,१ : ४<sup>३</sup>.  
 बुद्बुदोदरि<sup>०</sup> -रयः वौश्रौप ४९ : ३.  
 √बुध् पाषा. भ्वा. पर. अवगमने,  
 उभ. अवबोधने; दिवा. आत्म.  
 अवगमने, बोधामसि वाश्रौ ३,  
 ३, ३, ११; बोधाति ऋषा ८,  
 ३२१; ऋषोषत् ऋष २,४,१५;  
 वृदे ४, १२९; ऋषोषत् आपमं  
 २, ११, १०; आमिण् २, १, ५ :  
 १३; या ११, ३१; ऋषोष, >  
 धा काश्रौ १६, ६, ३०; आपश्रौ  
 १६, ११, १२<sup>३</sup>; १३, १; माश्रौ;  
 या १०, ८.  
 बुध्यते आपश्रौ १४, ९, ३; हिश्रौ  
 १०, ८, ३९; बुध्यति अप ६८,  
 २, ३; बुध्यन्ते वौश्रौ ७, १ : १४४;  
 हिश्रौ ८, १, १; अतुध्यत वृदे  
 ५, ६९; बुध्यते वृदे ३, ४८;  
 बुध्येत अप ६८, २, २२२;  
 बुध्येरन् वौश्रौ १४, २० : १०.  
 बुधुधे वृदे ६, १००; १५०;  
 ऋषोषि वाश्रौ ४, १३, ७; १५,  
 २; शांश्रौ; अतुधुधन् शांश्रौ ८,  
 २०, ११; ऋषोषम् शांश्रौ ११,  
 ९, ७; ऋष २, १०, ३५; वृदे ७,  
 ३७.  
 बोधयति आपश्रौ ६, १, ३; आपमं  
 २, १४, २१<sup>०</sup>; भाग १, २३ :  
 १७१<sup>०</sup>; कौसू ५९, १८; ऋषोषय  
 शांश्रौ २, ५, १३; आपश्रौ ५,  
 २८, १०; १६, ७, ६१<sup>१</sup>; वौश्रौ;  
 ऋषोषयत वौश्रौ २, १४ :  
 १३; १०, १७ : ११; बोधयेत्  
 वैताश्रौ ५, ९; आपध १, ४, २५,  
 हिष १, १, १४४; २, ५, २३७.

बोधयिष्यति आपश्रौ ६, २७,  
 १; वैश्रौ; बोधयिष्यन्ति वौग ४,  
 ९, १५; ऋषोषयत् शांश्रौ १२,  
 १५, २; या ४, १७.  
 बोधयाम् √अस, बोधयामास  
 वृदे ६, ३७.  
 बुधोषति आपमं १, १, १; वौग  
 १, १, १४.  
 बुध- -द्धे आपध २, २१, १४; १६;  
 हिष २, ५, १२३; १२५.  
 बुध-शास्त्र- -स्त्रात् मीसू १, २,  
 ३३.  
 बुद्धि- -द्धये वैग ५, ३ : २०१;  
 -द्धिः वौश्रौ २९, ८ : १४; वैग;  
 -द्धिम् वैग १, १९ : १२; वैष  
 १, १२, १४; २, ६, १; या १, ४;  
 -द्धेः अप ४८, ८४; शंघ १६२;  
 -द्धौ पावा १, ४, १०९<sup>१</sup>; -द्धया  
 वौष १, १, १६; वृदे ८, १३०;  
 या १३, १९; १४, ६; पाशि ६.  
 बुद्धि-काम- -मः कौशि ६२.  
 बुद्धि-कार-(>वौद्धिकार्थ- पा.)  
 पाग ४, १, १५१.  
 बुद्धि-जन्मन्- -न्म मीसू १, १,  
 ४.  
 बुद्धि-दीपि(न>)नी- नीम्  
 माशि १६, १६.  
 बुद्धि-पूर्वे- -र्वम् आपध १, ४,  
 २५; २, २५, ११; २६, १९;  
 हिष १, १, १४४; २, ५, २१४.  
 बुद्धि-मत्- -मतः या १३, ३५;  
 १४, २२; -मते शांश्रौ २, ५,  
 १३; भाग १, ५, २; -मान् अप  
 ५२, १०, ५; ६२, १, १; २;  
 आज्यो ७, १४.

बुद्धिमद्-इन्द्रुमत्- -मन्तौ  
 आश्रौ २, ८, ८.  
 बुद्धि-मोह- -हम् आज्यो ७, ९.  
 बुद्धि-रूप-शील-लक्षण-संप  
 (न>)ना- -नाम् आग १,  
 ५, ३.  
 बुद्धि-नाच्- -नाक् अप ७०<sup>२</sup>,  
 २३, १४.  
 बुद्धि-शक्ति-समेत- -तः कौशि  
 ५७.  
 बुद्धी(द्धि-इ)न्द्रिय- -याणि विष  
 ९६, ९४.  
 बुद्ध्वा आपश्रौ १२, १, १; वैश्रौ.  
 बुध्- -धः आमिण् २, ४, १० : ५;  
 ७, ६ : ३६; ३, १२, १ : ११;  
 १२; कागृत्; -धाः आमिण् ३,  
 १०, ४ : २१; अप; -धैः कप्र ३,  
 ५, ३; अप.  
 बुधा(ध-आ)दि- -दीनाम् पावा  
 ३, १, १३५.  
 बुध्- -धः वैग ४, १३ : ३; जैग;  
 आज्यो ७, १०; -धम् वैग १, ४ :  
 ९१; जैग २, ९ : १०; शंघ  
 ११६ : ४८; वौष २, ५,  
 २३१; -धस्य अप ७०<sup>३</sup>, २३,  
 १४; आज्यो ८, ५; -धाय  
 आमिण् २, ५, १ : १६; १९;  
 २६; ३५; ४५; वैग; -धे अप  
 ६२, ४, ३; ७१, ७, ४.  
 वौध- -धाः अप ५२, ३, १;  
 -धे विष ७८, ४.  
 बुध-वन्धन- -न्ने अप ५१, ४, २.  
 बुध-वृहस्पति- -ती आज्यो ८, १-  
 बुध-वार- -रे वैग २, १२ : २.  
 बुध्- -धः वौश्रौ १८, २६ : ५-

a) विप. (२अप- ) तद्धति वृत्तिः। b) व्यप.। c) पा १, ३, ८६; ३, १, ६१ परामृष्टः द्र.। d) पाभे.  
 वैप १, २२७९ m द्र.। e) पाभे. पृ ९९७ q द्र.। f) पाभे. वैप १, २२८० c द्र.। g) नाप.। कर्तारि कः प्र.।  
 h) =ग्रह-विशेष-। i) व्यप. (कपि- [सौम्य-] )।

ऋञ् २, १०, १०१; शुञ् २, १२३<sup>१</sup>; अञ् २०, १३७.  
 बुध-गविष्टि- रौ ऋञ् २, ५, १; शुञ् २, २३०; साञ् १, ७३.  
 बुधन्<sup>१</sup> -> बुधन्-वत्<sup>१</sup> - वान्  
 भाश्रौ ५, २०, ६.  
 बुधन्वती<sup>१</sup> - ती वैश्रौ १, २० : ३.  
 बुधान- पाठ २, ९०; -नः या १०, ४१<sup>१</sup>कृ.  
 √बुध्य<sup>१</sup> - -०ध्य<sup>१</sup> माश्रौ १, ६, ३, ७; १४.  
 बुध्यमान- -नेषु आपश्रौ १४, ९, ३; हिश्रौ १०, ८, ३९.  
 बोद्धव्य, न्या- -व्यः अप ५८<sup>२</sup>, ३, ९; ६८, २, १८; -न्याः अप ५८<sup>३</sup>; ४, १२; १८.  
 १बोध<sup>१</sup> - पाग ४, ३, ९२<sup>६</sup>; -धः आपमं २, १६, १४<sup>१</sup>; माग्य २, १५, १<sup>१</sup>; चाञ् ३८ : ७<sup>१</sup>; ४२ : २०<sup>१</sup>; अञ् ८, १<sup>१</sup>.  
 बौधेय<sup>१</sup> - -याः चव्यू २ : ३७.  
 १बौधेय- पा ४, १, १०७<sup>१</sup>.  
 -ध्याः बौश्रौ प्र ३२ : १०.  
 रबौधेय- पा ४, ३, ९२.  
 √बोध-प्रतीबोध- -धौ<sup>१</sup> अत्रा ३, १, ७; शौच ४, ९६.  
 २बोध<sup>१</sup> -> बोध-वत्(त् >)ती<sup>१</sup> -  
 -तीभ्याम् आपश्रौ १६, १३, १<sup>१</sup>;  
 हिश्रौ ११, ५, १२.  
 बोधत्-> बोधद्-वत्(त् >)ती<sup>१</sup> -

-तीभ्याम्<sup>१</sup> माश्रौ ६, १, ४, ३५; वैश्रौ १८, ११ : १८.  
 बोधन्-मनस्<sup>१</sup> - -नाः साञ् १, १४०<sup>१</sup>कृ.  
 बोधन- -नात् काश्रौ २२, ४, १.  
 बोधयत्- -यन् या १०, ४१.  
 बोधयन्ती- -न्ती या ४, १६<sup>१</sup>कृ;  
 बोधयितृ- -०न्तः या १०, ८.  
 बोधित- -तः माशि १०, १; १२, २; -ते वृदे ८, ७.  
 बोध्य, ध्या- -ध्यः अप ४७, १, १९; -ध्यम् अप ४७, १, १५; -ध्याः अपं १ : ३२; ४ : ८<sup>१</sup>; १७; ५ : १३; १९.  
 बुध्न्त<sup>१</sup> - पाठ ३, ५; -ध्नः बौश्रौ १०, ५४ : २; १५, ३५ : ३; -ध्नम् बौश्रौ ९, ३ : १२; भाश्रौ; या १०, ४४<sup>१</sup>कृ; -<sup>१</sup>ध्नात् आश्रौ ४, ६, ३<sup>१</sup>; बौश्रौ १३, २७ : ७; ८; ११; हिश्रौ २२, ४, १३; -ध्ने शांश्रौ १४, ५७, ८<sup>१</sup>कृ; वृदे ५, १६६; या १०, ४४<sup>१</sup>कृ; -ध्नेन शांश्रौ २, ९, ६; आपश्रौ ९, २, ९; भाश्रौ ९, ४, १; हिश्रौ १५, १, ४८.  
 बुध्न-वत्(त् >)ती<sup>१</sup> -ती बौश्रौ १३, २७ : ६; १०.  
 १बुध्निय<sup>१</sup> - -या तैप्रा १०, १३<sup>१</sup>कृ.  
 √बुध्निय(२अहि)- -०य आपश्रौ ५, १८, २; बौश्रौ; -यः आपश्रौ

१, २२, २; ४, २, १; १६, १५, १;  
 बौश्रौ ६, २९ : २१; भाश्रौ;  
 -यम् बौश्रौ १२, ११ : ७;  
 -याय आपश्रौ ५, १८, २; हिश्रौ ६, ५, १६; वैगृ ३, २० : ११; ५, २ : ३०.  
 √बुध्न्य, ध्न्या- -०ध्न्य<sup>१</sup> आपश्रौ ६, २४, २; ६; २६, २; ५; हिश्रौ ६, ७, २; ७; -ध्न्यः जैश्रौ १३ : २३; -ध्न्या आश्रौ २, १८, ४; शांश्रौ ३, १५, ९; -ध्न्याः आश्रौ ४, ६, ३; ५, ९, ५; दंवि १, १२; -ध्न्यात् अञ् ४, २.  
 √बुध्न्य(२अहि)- -ध्न्य आपश्रौ ५, १२, २; वाश्रौ १, ४, ४, १; ५, ४, २७; ३६; वैश्रौ १, १४ : १६; -ध्न्यः आश्रौ ५, २०, ६; शांश्रौ ६, १२, २६; ८, ६, ८; आश्रौ; वृदे १, १२६६; या १०, ४४<sup>१</sup>कृ; वेज्यो ३४; -ध्न्यम् वृदे ५, १६५.  
 √बुन्द्<sup>१</sup> पाधा. भ्वा. उभ. निशामने.  
 बुन्द<sup>१</sup> -न्दः निघ ४, ३<sup>१</sup>कृ; या ६, ३२; ३३<sup>१</sup>कृ; -<sup>१</sup>न्दम् साञ् १, २१६; या ६, ३४; -न्देन या ६, ३४.  
 बुभुक्षमाण- प्रभृ. √भुज् द्र.  
 बुभूर्पा- √भृ द्र.  
 बुभूपत्-, -पा-, -पु- √भू द्र.  
 बुर्बुर्- -रम् निघ १, १२<sup>१</sup>कृ.  
 √बु(त् >)ल<sup>१</sup> - -ला<sup>१</sup> माश्रौ ६, २, २, १०; वाश्रौ २. २, १, २५.  
 √बुस<sup>१</sup> -सम् अप ४८, ७५; निघ

a) बुधसौ<sup>१</sup> इति पाठः? यनि. च सौम्यः इति च द्वि-पदः शोधः । b) वैप १, २२८० । द्र. ।  
 c) वैप १, २२८० m द्र. । d) वैप १ द्र. । e) पामे. वैप १, २०४२ f द्र. । f) वप्रा. । विशेषः टि. द्र. ।  
 भावे कर्तरि वा प्र. । g) = प्रदेश-विशेष- । h) = ऋषि-विशेष- । i) बोधः प्रबोधः इत्यस्य स्थाने  
 सपा. शौ ५, ३०, १० प्रभृ. बोधप्रतीबोधौ इति पामे. । j) भाप. । k) = वाजसेनयशान्ता-भेद- ।  
 l) पामे. वैप १, २२८० n द्र. । m) वस. । n) पामे. वैप १, २२८० k द्र. । o) पामे. वैप १,  
 २२८१ c द्र. । p) पामे. वैप १, २२८१ g द्र. । q) √बुन्द् इति BPG. । r) = उदक- ।  
 ५) पामे. वैप १, १६५४ c द्र. ।

१, १२; या ५, १९६.  
 २वुस-(>वुस-स- पा.) पाग ४, २, ८०.  
 √वुस्त पाधा. चुरा. उभ.आदरानाद-  
 रयोः.  
 वुस्त- पाग २, ४, ३१.  
 √वृह्<sup>३</sup> पाधा. भ्वा. पर. वृद्धौ शब्दे  
 च; चुरा. उभ. भापायाम्.  
 वृहण<sup>३</sup> -०ण विध १, ५५०.  
 वृवत्<sup>३</sup> ->वृवद्-उक्व<sup>३</sup> -क्यः या ६,  
 ४<sup>३</sup>६; -क्यम् साथ १, २१७;  
 निघ ४, ३; या ६, ४.  
 वृवृ<sup>३</sup> -ञः शांश्रौ १६, ११, १२<sup>३</sup>; ऋअ  
 २, ६, ४५; -वौ शांश्रौ १६, ११,  
 ११.  
 वृवु-स्तुति- -तिः वृदे ५, १०८.  
 वृवृक<sup>३</sup> -कम् अप ४८, ७५; निघ  
 १, १२; या २, २२६.  
 वृवृ<sup>३</sup> - पाग ४, १, ४१; पाग ६, ३,  
 १०८; -सीः शांश्रौ १७, ४, ७;  
 १७, ४; वौश्रौ १६, २०-२१ :  
 ४; -सीभ्यः शांश्रौ १७, ६, ६;  
 -सीम् द्राण ३, ५, १०<sup>३</sup>२<sup>३</sup>;  
 -सीपु काश्रौ १३, ३, १<sup>३</sup>; -स्यौ  
 शांश्रौ १७, १४, ६.  
 √वृह् (वधा. L = √वृह् J) पाधा. भ्वा.  
 पर. वृद्धौ; तुदा. पर. उद्यमने.  
 वर्ह<sup>३</sup> ->वर्हिष्ठ- -ष्टम् आश्रौ ५, ९,  
 २१<sup>३</sup>?.  
 १वर्ह<sup>३</sup> ->वर्हवत्-(>वर्हवत्-  
 पा.) पाग ५, २, ६१.

२वर्ह<sup>३</sup> ->वर्हिण<sup>३</sup> - पाउवृ २, ४९;  
 पावा ५, २, १२२.  
 वाहिण- पा, पाग ४, ३, १५२.  
 वर्हिण<sup>३</sup> -हिणः अप ५८<sup>३</sup>, २,  
 ८; -हीं विध ४४, ३२.  
 वृवर्ह<sup>३</sup>(ण>)ण<sup>३</sup> -ण<sup>३</sup> निघ ४, ३;  
 या ६, १८६.  
 वृवर्हि<sup>३</sup> ->वर्हि-व(<स)द्व<sup>३</sup> -  
 -क्यम् आश्रौ १, ४, ८; निघ ३,  
 ३; -क्यदः आश्रौ २, १९, २१६;  
 आपश्रौ ८, १५, १९६; वौश्रौ १,  
 १९ : ३७; ५, १४ : १०; भाश्रौ;  
 कौस् ६, ९<sup>३</sup>; -षदम् शांश्रौ ४,  
 ९, २; काश्रौ ३, ४, १०; आपश्रौ;  
 -पदाम् शांश्रौ ३, १६, ६; काश्रौ  
 १५, १०, १६; १२, ३, २४; -पदे  
 वौश्रौ १०, ५० : १४; -पदभ्यः  
 शांश्रौ ३, १६, २; काश्रौ ५,  
 ८, ११; ९, ६; आपश्रौ ८, १३,  
 १६; २०, १४, १३<sup>३</sup>; वौश्रौ.  
 वर्हिण<sup>३</sup> - पाउ २, १०९; पाग ५, १,  
 २; -हिः आश्रौ १, १, २३××;  
 शांश्रौ; आपश्रौ ८, १, १०<sup>३</sup>;  
 भाश्रौ ८, १, १३<sup>३</sup>; वैश्रौ ८, ३;  
 १३<sup>३</sup>; हिश्रौ ५, १, ९<sup>३</sup>; शुअ  
 २, ४३१<sup>३</sup>; ननिघ १, २<sup>३</sup>; १२;  
 ५, २<sup>३</sup>; या ५, २८<sup>३</sup>; ६, १४<sup>३</sup>;  
 ७, २०<sup>३</sup>; न<sup>३</sup> ९६; १३<sup>३</sup>; १४,  
 ११<sup>३</sup>; -हिभ्याम् आपश्रौ ७,  
 १२, ८; १२, १७, ९; २८, ५;  
 वौश्रौ; -हिषः शांश्रौ १, १५, १५;  
 काश्रौ; -हिषा आपश्रौ १, ७, १३;

२, ९, २××; वौश्रौ; -हिषाम् वैवृ  
 ५, १३ : १४; कौस् १३७, ३६;  
 -हिषि आश्रौ २, १९, ३०; ३,  
 १४, १३<sup>३</sup>; ५, २, ८; शांश्रौ;  
 आपश्रौ १८, २, १६<sup>३</sup>; -हिषी  
 आपश्रौ ७, १२, ५; वौश्रौ; -हिषि  
 वौश्रौ १, १३ : ६; माश्रौ १, २,  
 ५, २३; -हिषोः वौश्रौ ५,  
 ६ : ७; हिश्रौ ४, ३, ५२; ४, १३;  
 -हींषि काश्रौ २, २, १५; ६, २,  
 १८; आपश्रौ ९, १७, १<sup>३</sup>; १४,  
 ७, ४; वौश्रौ.  
 वर्हिः-कल्प- -ल्पेन वैश्रौ ३, ५ :  
 ४.  
 वर्हिः-परिधि- -धि काश्रौ ५, ९,  
 २९.  
 वर्हिः-प्रभृति- -ति वौश्रौ २४,  
 ३२ : ८; ९; २४; २५.  
 वर्हिर्-अग्र- -ग्रम् वैश्रौ ५, ५ :  
 ६; -ग्राणि वैश्रौ ५, ५ : ८.  
 वर्हिर्-अन्त- -न्तम् काश्रौ ८,  
 ६, २५.  
 वर्हिर्-आज्य- -ज्ययोः मीस् १,  
 ४, १०.  
 वर्हिर्-आदि- -दि भाश्रौ ७, ६,  
 १<sup>३</sup>.  
 वर्हिर्-आहरण- -णस्य वाश्रौ  
 १, १, ३, ७.  
 वर्हिर्-उक्ति- -क्तौ वैश्रौ ११,  
 १० : ७.  
 वर्हिर्-वन्ध- -न्धम् वैवृ १,  
 १० : ८.

a) पावा ६, ४, २४ परामृष्टः द्र. । b) कर्तरि प्र. । c) वृ<sup>३</sup> इति जीसं. । d) वैप १ द्र. ।  
 e) = [दर्भमय-] आसन- । व्यु. ? √वृ + √सद् इति पा ६, ३, १०९ । f) पृ १६४२ f द्र. । g) वृ<sup>३</sup> इति पाठः ई  
 यनि. शोधः । h) कूर्मफलक- वा कट- वेति भाष्यम् । i) वशीपु इति चौसं. । j) = मयूर-पिच्छ- । घा.  
 वृद्धौ वृत्तिः । k) = मयूर- । l) पामे. वैप १, १९३६ X द्र. । m) पामे. वैप १, २२८२ I द्र. । n) पामे.  
 पृ १७४४ i द्र. । o) = आश्री-देवता- । p) अन्तरिक्ष-नामन्- । q) पाठः ? वर्हिपि इति शोधः (तु. सप्र-  
 आपश्रौ १४, ७, ४; C. च) । r) वस. वा. क्वि. ।

वर्हिर्-बन्धन- ने वैगृ १,१० :  
 ५  
 वर्हिर्-मुष्टि- -ष्टिम् आपश्रौ १२,  
 १७,४;७; वौश्रौ.  
 वर्हिर्-मूल- -लेभ्यः आपश्रौ २,  
 ९,१४.  
 वर्हिर्-यजुस्<sup>१</sup>- -जुषा वौश्रौ  
 २५,१० : १७; ११:१;२५:२.  
 वर्हिर्-लवन<sup>२</sup>- -नः वौश्रौ २४,  
 ७ : ४.  
 वर्हिर्-लाव<sup>३</sup>- -वः वौश्रौ २०,  
 ३ : २२; २५; -वम् वौश्रौ २,  
 १९ : १.  
 वर्हिर्-वपाश्रपणी-कुम्भी-हृदय-  
 शूल-पुस्तशाखा- -खाः वैश्रौ  
 १७,१० : ८.  
 वर्हिर्-वर्जम् काश्रौ ५, ११, ३;  
 १०,८,२५;३२.  
 वर्हिर्-हस्त<sup>४</sup>- -स्तम् वौश्रौ ४,४:  
 ७; १५; ६,२६ : २७;२७ : ३;  
 २८:१; -स्तेन वौश्रौ ८,१० : ५,  
 वर्हिर्-होम- -मात् काश्रौ १९.  
 ५,११; वैताश्रौ ३१,२०:  
 वर्हिर्-चतुष्टय- -यम् वौश्रौ ६,  
 १२ : ३.  
 वर्हि- (स्य >) ष- पा ८, ३, ९७,  
 वर्हिष्-पL, पू<sup>५</sup> ल- पाग ८, ३,  
 ४८<sup>६</sup>.  
 वर्हिष्-मव- -मन्तम् माश्रौ ५,  
 १, ३, २३; -मन्तौ आश्रौ २,  
 १९,१२; ६,१३, ४.

वर्हिष्मती- -ती अप्राय ६,  
 ९; -स्याम् कप्र ३,२,२.  
 वर्हिष्-वृण- -णेन काश्रौ ७,  
 ६, ६.  
 वर्हिः-संयोग- -गात् काश्रौ ५,  
 ८,३६.  
 वर्हिः-संनहन<sup>७</sup>- -नानि वौश्रौ  
 १,१३ : १६.  
 वर्हिः-स्तरण-मन्त्र- -न्त्रेण  
 वाश्रौ १,३,३,९.  
 वर्हिः-स्थान- -ने आपश्रौ १४,  
 ३, २; २०, १३, १०; २१, ६,  
 १७; ७,३; ९; ८,४; हिश्रौ १६,  
 ३,३९.  
 वृह (> वृहक्-) पावा ५,४,३.  
 वृहत्<sup>८</sup>- पाठ २,८४; पाग ३, १,  
 १२; ४, १, ४१; ८६; ५,४, ३;  
 -हव आश्रौ ४, ११, ६; १३,  
 ७<sup>९</sup>; ५, १३, ६<sup>१०</sup>xx; ८,  
 ६, ८<sup>११</sup>; ९, ९, १४<sup>१२</sup>; शाश्रौ  
 १, ११, १<sup>१३</sup>; ५, ९, १९<sup>१४</sup>;  
 ७, १५, ११; १६, ८<sup>१५</sup>xx;  
 काश्रौ ४, ९, १३; १६, ५, १९;  
 १८, ३, २; २५, १३, १२; आपश्रौ  
 २, १४, १०; ५, ६, ३; ७, ४,  
 ५<sup>१६</sup>xx; वौश्रौ; अप ४८, ६८<sup>१७</sup>;  
 १४१<sup>१८</sup>; या १, ७; २, १२; ५,  
 १९<sup>१९</sup>; ६, १४<sup>२०</sup>; ७, २<sup>२१</sup>; १०;  
 ऋप्रा; -<sup>२२</sup>हव-हव काश्रौ १०,  
 १, ९; आपश्रौ १३, १, १०; नाश्रौ  
 २, ४, ४, ७; हिश्रौ ९, १, ८;

-<sup>२३</sup>हव-हव वौश्रौ ८, १ :  
 १७, १८, ३० : १; -हवः आश्रौ  
 ४, १, २३; ७, ३, १८; ८, ७, ४; ११,  
 १; १२, १९; शाश्रौ; आपश्रौ १८,  
 ६, १५<sup>२४</sup>; या ९, ८<sup>२५</sup>; १०, ११;  
 -हता आश्रौ १, ७, ७<sup>२६</sup>; आपश्रौ;  
 -हताम् हिश्रौ ८, ६, ३३<sup>२७</sup>; विष  
 १, ५५; -हति शाश्रौ ११, १३,  
 २१; ३२; १४, ५; आपश्रौ; -हते  
 आश्रौ ४, १३, ७; ५, १४, १८;  
 शाश्रौ १७, १३, ३<sup>२८</sup>; आपश्रौ १४,  
 ३४, ५<sup>२९</sup>; वौश्रौ; -<sup>३०</sup>हन्तिः साश्र  
 १, ३७; ऋप्रा १६, ७३; १८, १४;  
 वैशि २६४; -<sup>३१</sup>हृद्भ्यः नाश्रौ  
 १, ८, ६, २२; ६, २, ४, ३<sup>३२</sup>;  
 -हन् आश्रौ ३, १२, २९; ४,  
 १३, ७; शाश्रौ ६, ४, ५; १०,  
 ११, ९<sup>३३</sup>; काश्रौ; माश्रौ २, १,  
 २, १५<sup>३४</sup>; -<sup>३५</sup>हन्तः आश्रौ  
 ७, ४, ४; शाश्रौ १२, ५, १८; ९,  
 ११; १८, ६, २; आपश्रौ; -हन्तम्  
<sup>३६</sup>आश्रौ २, ८, ३; ३, ७, १५; ८, १;  
 आपश्रौ; -हन्ता वाश्रौ १, १, ६,  
 ६<sup>३७</sup>; -हन्तौ वृदे २, ३९.  
 वृहती<sup>३८</sup>- पा ४, १, ४१;  
 पाग ४, ३, १६४<sup>३९</sup>; -<sup>४०</sup>ति  
 वाश्रौ ४, २६<sup>४०</sup>; ५; -ती<sup>४१</sup>  
 आश्रौ २, १०, २१<sup>४१</sup>; १४, २२;  
 ३, ८, १<sup>४२</sup>; ४, १२, २<sup>४३</sup>; ८, ५,  
 १५; १२, ९, १५; शाश्रौ; आपमं  
 २, १७, १८<sup>४४</sup>; माश्रु १, ६ : ७;

a) मलो. कस. । b) उत्स. उप. करणे कृत् । c) विप. > नाप. । उप. कर्तरि कृत् । d) = वर्हिर्-  
 मुष्टि- । e) पाका. पाठः । f) बहिष्पल- इति [पदे] पासि. । g) नाप. । h) वैप १ द्र. । i) पाभे.  
 वैप १, २२८५ h द्र. । j) पाभे. वैप १, २२८५ f द्र. । k) = महव- । l) = सामन्- । m) पाभे. वैप १,  
 १२३२ a द्र. । n) सपा. वृहतः स्तोत्रम् <> वृहत्स्तोत्राय इति पाभे. । o) पाभे. वैप २, ३३. वृहते तैत्ति २,  
 १२, १ ति. द्र. । p) पाभे. वैप १, २२८७ h द्र. । q) पाभे. वैप १, २२८६ d द्र. । r) पाभे. वैप १,  
 २२८७ l द्र. । s) = वृह-भेद- । t) कचित् वृ १ द्र. । u) पाभे. वैप १, २२८८ h द्र. ।  
 x) पाभे. वैप १, ९९० b द्र. ।

कीस् ३५, ४<sup>2B3D</sup>; काशु ५, ६०;  
 ङ्या २, २५; ७, १२६; ८, १११;  
 ९, २९१; पिं ३, २६; -तीः  
 काश्रौ १७, १२, ९०; आपश्रौ १७,  
 २, ४०; ४, १०; वौश्रौ १०, ४०:  
 १३०××; वैश्रौ; -ङ्तीः वौश्रौ  
 ६, ४ : ४; भाश्रौ १०, ५, १०;  
 वाधुश्रौ ४, २९ : १०; -तीनाम्  
 ऋश्र ४, ३; उनिस् २ : ३४;  
 -तीभिः आश्रौ ६, ३, ७;  
 माश्रौ ६, २, २, २१; वाश्रौ  
 २, २, १, ३१; वौश्रु १४:  
 ४××; -तीभ्यः निस् ३, १२:  
 ४८; -तीम् आश्रौ २, १०,  
 २१; शाश्रौ; -तीषु काश्रौ २५,  
 १३, ६<sup>d</sup>; द्राश्रौ; लाश्रौ ७, ३, ७<sup>d</sup>;  
 -त्यः आश्रौ ८, ५, १४; शाश्रौ  
 ७, २५, १४; १२, ९, १०; आपश्रौ;  
 -त्या आपश्रौ १९, २२, १३;  
 वौश्रौ १८, ३१ : १०; माश्रौ; या  
 २, २५; -त्याः निस् १, ३ : १३;  
 कौश्र १, १५, १<sup>b</sup>; शाश्रु १, २३, १<sup>b</sup>;  
 पाश्रु १, १३, १<sup>b</sup>; शुश्र ४, १३७;  
 उनिस् ८ : १९; -त्याम् शाश्रौ ७,  
 २५, ४; काश्रौ १९, ५, २<sup>d</sup>; वाधुश्रौ  
 ४, ७० : १६; वाश्रौ; -त्यै हिश्रौ  
 २, ८, ११; वैताश्रौ १, १८; -त्यौ  
 वाधुश्रौ ४, २६<sup>f</sup> : ९; ११; १२;  
 द्राश्रौ; या ८, ११.  
 वृहति-(क>)का<sup>e</sup>-  
 पा ५, ४, ६.  
 वृहती-कारम् आश्रौ  
 ५, १५, ७; ११; शाश्रौ १२, ६, १.  
 वृहती-क्षय<sup>f</sup>- -यः  
 निस् ५, ४ : १०; -यात् लाश्रौ

१०, ६, ११; ७, ६.  
 वृहती-ग(र्भे>)  
 भा<sup>g</sup>- -र्भा अश्र १, १४; २,  
 ३५××.  
 वृहती-ग्रहण- -णम्  
 लाश्रौ १०, ७, ७.  
 ङ् वृहती-च्छन्दस्<sup>h</sup>-  
 -न्दसः जैश्रौ १५; १३; -न्दांसि  
 भाश्रौ १०, १८, १०.  
 वृहती-त्रिष्टुभ्-  
 -ष्टुभोः लाश्रौ १०, ७, ४.  
 वृहती-पूर्व<sup>h</sup>- -र्वः  
 ऋश्र १८, १.  
 वृहती-फल- -लम्  
 आमिष्ट ३, ६, ३ : ५; १३; वौपि  
 १, ११ : ४; ११; हिपि ९ : ६.  
 वृहती-मुख<sup>h</sup>- -खः  
 ऋश्र १८, ११.  
 वृहती-विपरी(त>)  
 ता<sup>h</sup>- -ते ऋश्र १, ११, ५.  
 वृहती-सतोवृहती-  
 -त्यौ ऋश्र १, ११, २; शुश्र ३,  
 १९९.  
 वृहती-संप(च>)जा-  
 -जाः काश्रौ २२, ११, २१;  
 लाश्रौ ९, ४, ३५.  
 वृहती-सहस्र- -स्रम्  
 शाश्रौ ९, २०, २९; १८, २१, १.  
 वृहत्य(ती-अ)सुण्ड-  
 भ्- -ण्डभोः लाश्रौ ९, १२, ८.  
 वृहत्य(ती-अ)न्त<sup>h</sup>-  
 -न्तम् ऋश्र २, ६, ४२; ८, ७८;  
 १०, ९३.  
 वृहत्य(ती-अ)न्तर-  
 श्रुति- -तेः काश्रौ १७, १२, १०.

वृहत्या(ती-आ)दि<sup>h</sup>-  
 -दि ऋश्र २, ७, १४; -दिः ऋश्र  
 १८, २१; -दी ऋश्र २, १, १७९.  
 ?वृहत्युक्त(म>)मा-  
 -मे निस् ५, ७ : ६.  
 वाहृत<sup>h</sup>- पा ४, १, ८६; -तः  
 आश्रौ ४, १२, १; शाश्रौ ७, २५,  
 ४; १०, ६, ५; ऋश्र १, ११, २;  
 ऋश्र १८, १; ११; -तम् आश्रौ  
 ४, १३, ७; १४-१५, २; ७, १२, ७;  
 शाश्रौ; -तस्य शाश्रौ ९, ५, १२;  
 छुस्; -तात् निस् ४, १३ : २२;  
 ६, २ : ७; -तानाम् आश्रौ १०,  
 ५, २१; शाश्रौ ७, २५, १२; १२,  
 ६, १; द्राश्रौ ८, १, २३; लाश्रौ  
 ४, ५, २०; ८, ५, ९; १०,  
 १, १५; वैताश्रौ २२, ९;  
 -तानि आश्रौ ८, ४, ८; छुस्  
 १, १ : ११; २ : ५××; निस् २,  
 ३ : ३; ४; ७; ८××; -ङ्ताय शाश्रौ  
 ९, २७, १; वौश्रौ; -ते आश्रौ ५,  
 १५, ६; शाश्रौ; -तेन निस् १०,  
 ४ : ११<sup>g</sup>; -तेभ्यः निस् ६, २ :  
 १२; -तेषु छुस् ३, १४ : ३; ६;  
 १०; १४; निस् ६, ३ : १५; ४ :  
 २; ७, ४ : २; ९, ४ : ३०; ३४;  
 -तौ वैताश्रौ ३१, १८; ३३, १०.  
 वाहृती<sup>h</sup>- -ती निस्  
 ३, ११ : ४; नाशि १, २, १०;  
 -तीनाम् शाश्रौ ९, २०, ६;  
 -तीम् शाश्रौ १८, ८, १.  
 वाहृत-ग(र्भे>)भा<sup>g</sup>-  
 -र्भा अश्र १, ८; १३, २.  
 वाहृत-प(र>)रा<sup>h</sup>- -रा  
 अश्र ११, ७.

a) पाठः ? स्ती, पला इति द्वि-पदः शोधः । b) नाप. (ओपधि-) । c) = इष्टकान्-विशेष- ।  
 d) = ऋच्- । e) = उत्तरीय-वन्न- । f) उप. <√क्षि [क्षये] । g) वस. । h) उप. = सतोवृहती- ।  
 i) विप. (लोक, सूक्त-, स्तोत्र- प्रम्.) । वैप १ द्र. । j) विप., नाप. (मूर्त्तना- [नाशि.]) ।

वारहत-रायन्तर- -रम्  
शांश्रौ १,२,१८.  
वारहतरायन्तर-ता-  
-तायाम् आश्रौ १०,५,२०.  
वारहत-लिङ्ग,ज्ञा<sup>१</sup>- -ज्ञाः  
निसू ६, २ : १४; -ज्ञानि निसू  
६,२ : १२.  
वारहत-चैराज-ग(र्भ >)  
र्भा- -र्भा अत्र १२,२.  
वारहत-स्तोम- -मान्  
निसू ७,५ : ३.  
वारहता(त-आ)नुण्डुम<sup>२</sup>-  
-भः कप्र १८,२१.  
वृहच्-चक्र<sup>३</sup>- -काणि वौश्रौ १५,  
१४ : ७.  
वृहच्-छन्द- -न्दम् शांश्रौ ७,  
१५, ११; -न्दे-न्दे आश्रौ ५,  
१२,२०.  
वृहच्-छरीर<sup>४</sup>- -रः चव्यू ४ :  
१७.  
वृहच्-छा(खा >)ख<sup>५</sup>- -खम् सु  
१३,५.  
वृहच्-छिरस<sup>६</sup>- > श्रो-रोमश-  
करि-रोहित-राजीव- -वाः वौष  
१,५,१३४<sup>५</sup>.  
वृहच्-छुक<sup>६</sup>- -कः अत्र ६, ५३.  
वृहच्-छ्वस<sup>७</sup>- -वाः या ६,१८.  
वृहत्-क- पागवा ५,४,३.  
वृहत्-कण्टारि<sup>८</sup>- > परि-कण्टका<sup>९</sup>-  
-काः अप १८, १,१६.  
वृहत्-तन्त्र- > वारहतन्त्र<sup>१०</sup>-  
-न्त्रम् निसू ६,६ : १२.

वृहत्-नृण- -शैः गोगृ ४,७,१०;  
द्रागृ ४,२,१०.  
वृहत्-पत्र<sup>१</sup>- > पत्र-क्षुद्रपशु-  
स्वस्त्य(स्ति-अ)र्ध- -र्थम् कप्र  
१,५,८.  
वृहत्पत्र-स्वस्त्ययन-काम-  
-मः गोगृ ४,५,२९; द्रागृ ४, १,  
१४.  
वृहत्-पर्व-ग्रन्थि<sup>२</sup>- -न्यिभिः  
कप्र १,७,६.  
वृहत्-पला(श >)शा<sup>३</sup>- -शे  
अत्र ६,३०<sup>४</sup>.  
वृहत्-पूर्व- -र्वे निसू ४,६:१५.  
वृहत्-शृष्ट<sup>५</sup>- -ष्टः आश्रौ ८, ५,  
१; ९, ३, ८; २४; शांश्रौ ११,  
१०,१; १५,१; आपश्रौ २२,१,  
५; वाश्रौ ३,२, १, ४४; ३, ७;  
हिश्रौ १७,१,८; द्राश्रौ ८,३, १;  
१५; लाश्रौ ४, ७, १; ३; १०,  
१३,६; १४,३; ८; छसू १,४ :  
२०; २,१ : १०; -ष्टम् आश्रौ  
७,३,९<sup>६</sup>१<sup>७</sup>; शांश्रौ १०, ३,१;  
९,१; ११,१; ११, २, १; १३,  
१; १२,२७,४; १४, १३, १२;  
द्राश्रौ ८, ३, ३३; लाश्रौ ४, ७,  
११; २,१५ : २०; निसू ७,६ :  
२; १० : २०; ८, ४ : १६; ९,  
६ : १८; -ष्टस्य शांश्रौ ७, १४,  
१; ११,१५,३; ८; १४,१३,१३;  
३८, ८; निसू ८, २ : ३; -ष्टाः  
छसू २, ३ : १; निसू ४, १२ :  
२५; -ष्टात् शांश्रौ १४, ८, ९;

-ष्टानि आश्रौ ७, ५, ३; -ष्टे  
शांश्रौ ७,२०,९; २१,३; २३,२;  
११,१०, ९; १२, ६, ७; वौश्रौ  
२५,२२:९; निसू २,११:२<sup>१०</sup>;  
४<sup>१</sup>; ६<sup>१</sup>; ३, ३ : १४<sup>१</sup>; ६, २ :  
२०; -ष्टेषु आश्रौ ९, १०, ६;  
१२,७,५; आपश्रौ २१, २३, ८;  
९; हिश्रौ १६, ८, १०; ११;  
द्राश्रौ ८, १, २५; लाश्रौ ४, ५,  
२०; निसू ६, २ : ३; ३ : १३;  
-ष्टौ वाश्रौ ३,२,२,११.  
वारहत्पृष्ठय- -ष्टयम् निसू  
६,२ : १५.  
वृहत्पृष्ठ-त्व- -त्वात् निसू ६,  
१० : ३९; ९,६ : २०.  
वृहत्-पोडशि-सामन्- -म निसू  
३,१० : २७; ३२.  
वृहत्-सदश- -शम् निसू ३,  
१० : ३२.  
वृहत्-संनिपात- -न्ते निसू १,  
१३ : १०; -तेषु निसू १,१३ :  
१४.  
वृहत्-सामन्- -म शांश्रौ १७,  
१२, १; वौश्रौ ११, १३ : १७;  
२५,३४ : १३.  
वृहत्-सामन्<sup>२</sup>- -मा शांश्रौ  
१३,२९, ८; आपश्रौ १२, १४,  
१; २०,२२, ३; २१, ८, १३;  
२२,२,५<sup>२०</sup>xx; वौश्रौ; -मानम्  
आपश्रौ १०,२,७; २१, ६, १३;  
१५,१०<sup>३</sup>; २३,१२, १८; वौश्रौ;  
अत्र ५,१९<sup>४</sup>; -म्ना आपश्रौ

a) वस. । b) विप. । कस. । c) नाप. (मत्स्य-) । वस. । d) श्रौ वृहच्छिरोमश इति मैस. Būh. च, श्रौ वृहच्छिरोमश इति Hultsch । e) = ऋषि-विशेष- । वस. उप. = दीप्ति- । f) नाप. (ओपधि- । g) मलो. कस. । h) = साम-भेद-? । वारहतम्, तन्त्रम् इति संस्कर्तुः टि. पाठः । i) कस. उप. = वाहन- (हस्त्यश्वादि-) । j) कस. > पस. । k) वैप १ द्र. । l) कस. (बु. सा [ऐत्रा ४, ३१]) । m) भिन्ने द्वे पदे इत्यपरः पक्षः (बु. Haug, K. [ऐत्रा.] श्रौत्रे व दशमे सूत्रे रयन्तरम् इति च यत्रापि पृष्टम् इत्यावर्तते) । n) सङ्कृत सपा. हिश्रौ १७,१,२३ रयन्तरम् इति पाठे. । o) वैप १,२२८९ । द्र. १



१०, २, ६; २२, ९, ११; १०,  
३; ६; १२, १७; १३, ८; हिश्रौ;  
-मिन् हिश्रौ ८, ४, २.

वार्हत्सा(म>)मा<sup>a</sup>- -०मे  
दंवि २, ७.

वृहत्-स्तोत्र<sup>b</sup>- -त्राय वैश्रौ १७,  
१६: ८<sup>c</sup>.

वृहत्-स्तोत्रीय<sup>d</sup>- -या: निसू ५,  
७: ५; -ये निसू ५, ४: १७.

वृहद्-अग्नि<sup>e</sup>- पाग ४, १, १०५<sup>f</sup>;  
२, १११; -मिन्: वौश्रौ ३३१: २.

वार्हदग्न्य- पा ४, १,  
१०५.

वार्हदग्न- पा ४, २,  
१११.

वृहदाग्नेय<sup>g</sup>- -यम् लाश्रौ ६,  
११, ४.

वृहद्-अग्निष्टोम-सामन्<sup>h</sup>- -मा  
क्षुसू २, १: १८; ५: १७.

वृहद्-अतिरात्र- -त्रे निसू ९, ८:  
१५.

वृहद्-अनुष्टुप्क<sup>i</sup>- -ष्कम् द्राश्रौ  
८, १, १०; लाश्रौ ४, ५, १०;

-ष्का: जुसू २, २: १.

वृहद्-आसि-><sup>j</sup>सि-ता- -तया  
निसू ४, ६: १९.

वृहद्-ईप्सा- -प्सया निसू २,  
११: ५.

वृहद्-उक्थ<sup>k</sup>- -क्थ: ऋअ २,  
१०, ५४; वृदे: -क्थानाम्<sup>l</sup> आश्रौ  
१२, ११, १; -क्थाय आग्निष्ट १,  
२, २: २०; वौष्ट ३, ९, ५; भाग्य  
३, १०: ४; हिय २, १९, ६;

-क्थे वृदे २, १३१.

वार्हदुक्थ--०क्थ<sup>m</sup> आश्रौ  
१२, ११, १; हिश्रौ २१, ३, ९.

वृहदुक्थ-वत्<sup>n</sup> हिश्रौ २१,  
३, ९.

वृहद्-उक्थ्य<sup>o</sup>->वार्हदुक्थ्य-  
-०क्थ्य<sup>m</sup> आपश्रौ २४, ६, १७.

वृहदुक्थ्य-वत् आपश्रौ २४,  
६, १७.

वृहद्-उक्ष<sup>a</sup>- -उक्षे वौश्रौ ८,  
१३: १०<sup>प</sup>.

वृहद्-ओप( श >)शा<sup>m</sup>- -शा  
जुसू २, १०: १७; ११: ७.

वृहद्-गर्भ<sup>q</sup>- -र्भम् लाश्रौ ९, ५,  
२४.

वृहद्-गिरि<sup>r</sup>->वार्हद्विरि-  
-स: साअ १, ६.

वृहद्-गिरि<sup>a</sup>->वार्हद्विरि<sup>e</sup>- -रम्  
लाश्रौ १०, २, १४; निसू ३,  
१०: ४; ४, ३: २७; ३४; ५, २:  
९; -रस्य लाश्रौ १०, २, १५;  
निसू ४, ३: २९.

वार्हद्विरि-रायोवाजीय-  
-ये लाश्रौ ७, २, १; निसू ४, ३:  
३०.

वृहद्-गु<sup>e</sup>->वार्हद्विग( व >)  
वी<sup>p</sup>- -वी अय १, ३, १.

वृहद्-ग्रावन्<sup>o</sup>- -वा<sup>p</sup> काश्रौ २,  
४, ११; वौश्रौ ६, २९: १; माश्रौ  
१, २, २, १२; वाश्रौ १, २, ४,  
४६.

वृहद्-दिव- -व: ऋअ २, १०,  
१२०; शुअ ३, २४१; साअ

२, ८३३; अअ ५, ३.

वृहद्-दि( व >)वा- -वा  
शाश्रौ १०, ७, १२; या ११,  
४९<sup>q</sup>.

वृहद्-ध(<ह)स्ति-रथ<sup>d</sup>- -थम्  
अय १, ४९, १; १४, १, १६.

वृहद्-ग्रह-सामन्- -मा लाश्रौ  
१०, १४, ८.

वृहद्-भक्ति-त्व- -त्वात् निसू  
६, ६: १२.

वृहद्-भानु<sup>a</sup>- -०नो द्राश्रौ १,  
४, ५; लाश्रौ १, ४, २.

वृहद्-भास<sup>a</sup>- -भा: आपश्रौ २,  
१४, १०<sup>प</sup>.

वृहद्-रथन्तर<sup>a</sup>- -रम् जुसू २,  
५: २६; -रयो: आश्रौ ५, १५,  
१२; शाश्रौ; -राभ्याम् आपश्रौ  
१७, १२, १०; वौश्रौ १६, १६:  
१; वैश्रौ; -रे आश्रौ ८, ५, १६;  
६, ८; शाश्रौ; लाश्रौ ३, १२, ६<sup>r</sup>.

वृहद्-रथन्तर-धर्म- -मार्न् निसू  
८, ७: २८.

वृहद्-रथन्तर-पुरस्ताज्ज्यो-  
-तिसू<sup>s</sup>- -ति: क्षुसू २, १२: २२;  
२५.

वृहद्-रथन्तर-पृष्ट<sup>t</sup>- -ष्ट:  
शाश्रौ १६, ३०, ६; काश्रौ; -ष्टम्  
निसू ६, ४: ७; -ष्टस्य शाश्रौ  
१०, ८, २१; -ष्टा: शाश्रौ १४,  
८४, ३; निसू ५, २: २१; २२;  
-ष्टान् निसू ८, ३: ८; -ष्टानाम्  
शाश्रौ ११, ११, १३; १२; ९;  
-ष्टानि क्षुसू २, १५: ६; ३, १:

a) वैप १ द्र. । b) = वृहत्पृष्ठ- । कस. । c) पाभे. पृ १८१२ II द्र. । d) मलो. कस. ।

e) = ऋपि-विशेष- । f) वृदग्नि- इति पाका. । g) = साम-विशेष- । h) कस. > वस. । i) वस. ।

j) वहु. < वार्हदुक्थ- । k) परस्परं पाभे. । l) पाभे. वैप १, २२९० f द्र. । m) वैप २, ३३०. द्र. ।

n) = आर्द्रा-नक्षत्र- । o) पाभे. वैप १, २२९० ० द्र. । p) वैप १ निर्दिष्टानां समावेशः द्र. । q) वैतु. दु. पदद्वयमिति ।

r) पाभे. वैप २, ३३०. वृहत् ऐत्रा ८, १७ टि. द्र. । s) = पडह-विशेष- ।

३; -छे शांश्रौ १०, ११, १४.  
 वार्हद्रयन्तरपृष्ठ<sup>१</sup> - छात्र  
 निसू ९, २ : ११.  
 वृहद्रयन्तर-पृष्ठ<sup>२</sup> - छयः  
 निसू ९, १ : २१.  
 वार्हद्रयन्तरपृष्ठ<sup>३</sup> -  
 -छयात् निसू ५, १ : ५; ७, ३ :  
 १५; ९, १३ : ४६; १०, ६ : १७;  
 -छयान् निसू ९, ३ : ५.  
 वृहद्रयन्तर-वत् मीसू ६, ६, ९.  
 वृहद्रयन्तर-सामन्<sup>४</sup> - मा  
 आपश्रौ २१, ८, १२; -न्ना हिश्रौ  
 १७, ५, २१.  
 वृहद्रयन्तरो( रउ )परिष्ठा-  
 ज्योतिस्<sup>५</sup> - तिः जुसू २, १२ :  
 २२; २७.  
 वृहद्-रथन्तर-कालेय-स्तोत्री-  
 य<sup>६</sup> - न्याः लाश्रौ १०, ६, ४; ७,  
 ८; १४; निसू ५, ३ : ९; ४ :  
 १२.  
 वृहद्-रायस्<sup>७</sup> - ?यः<sup>८</sup> माश्रौ २,  
 २, ३, ६; ८.  
 वृहद्-रि<sup>९</sup> - रये वैताश्रौ २५,  
 ७<sup>१</sup>.  
 वृहद्-वत् - वते आपश्रौ  
 १२, १५, ११; वौश्रौ ७, ७ : १२;  
 २६, ३१ : ४; माश्रौ २, ३, ५, १;  
 वैश्रौ १५, १७ : ८; हिश्रौ ८, ४,  
 २८.  
 वृहद्-योनि<sup>१०</sup> - नि निसू  
 ९, ५ : २४.  
 वृहद्-वयस्<sup>११</sup> - न्यसः शांश्रौ  
 ८, २३, १; -याः आपश्रौ १७,

६, १; वौश्रौ ३, १३ : ११; हिश्रौ.  
 वृहद्-वारवन्तीय- ये लाश्रौ  
 ९, ५, १५.  
 वृहद्-वैराज- -जाम्याम् आश्रौ  
 ९, ११, ६.  
 वृहन्-निघन<sup>१२</sup> - नम् क्षुसू २,  
 १० : १२; ११ : ४; निसू १,  
 १३ : १३; १०, १ : २८; -नानि  
 निसू १, १३ : १३; -नेन निसू  
 ७, १२ : ११.  
 वृहन्-मति<sup>१३</sup> - तिः ऋअ २,  
 ९, ३९; साअ २, २४८.  
 वृहन्-महत् - महतोः पावा ६, १,  
 १६९.  
 √वृहाय पा ३, १, १२.  
 ब्रह्मन्<sup>१४</sup> - पाठ ४, १४६; पाग ४,  
 ३, ११८<sup>१</sup>; -ह्य > ह्या वृशाश्रौ  
 १, ७, ७<sup>१</sup>; ४, १, २३××; वृशांश्रौ  
 १, १२, १<sup>१</sup>; ४, ९, २××; १६,  
 ५, २<sup>६</sup>; काश्रौ; आपश्रौ २३, १४,  
 १६<sup>१</sup>; वौश्रौ १७, ४४ : १६<sup>२</sup>;  
 माश्रौ ५, २, ११, १४××;  
 वाधूश्रौ ४, ३६ : ७; ३७ :  
 २९××; हिश्रौ २, ४, ७; ५,  
 ४७<sup>३</sup>; ६, २, ११; जैश्रौ १२;  
 जैश्रौका ५०; ६७; ७७; ७८;  
 आपमं २, १४, ८; १५, ६; आगृ  
 ३, २, २; पागृ १, १६, ६;  
 २, १०, २२; आगृ १, ५,  
 २ : ३८<sup>४</sup>; ४०<sup>५</sup>; २, ६, ८ :  
 २१<sup>६</sup>××; वौश्रौ १, ३, ३४××;  
 वौषि २, २, २; ३, ५, २;  
 १०, १; मागृ १, २, २; वैगृ २,

२ : ५; ३, १७ : ५; ५, ९ :  
 ७; हिपि १९ : १४; जैगृ २,  
 ८ : १९; ९ : १५; १८; कष  
 १, १०, ४; २, ४, १०; ३, २, १६;  
 अप्राय ३, ३; ५, ६; अप्र १, २, २;  
 १७, १××; ४८, ८८<sup>७</sup>; ५७,  
 ३, ६<sup>८</sup>; वाघ २, १२<sup>९</sup>; ६, २; ५; १०,  
 ५; २५, ४; ११; शंघ ४६२; आपघ  
 १, ५, २; ९, १३; १३, ६; ७; ११;  
 १८; वौष १, २, ५०<sup>१०</sup>; ५२;  
 १०, २××; विघ ५५, १७<sup>११</sup>;  
 ६८, ३९; वैष ३, ७, ६; १३<sup>१२</sup>;  
 हिघ १, २, २××; गौघ २,  
 ९; वृदे १, ६२; २, ४०<sup>१३</sup>;  
 शुअ; वृनिघ २, ७<sup>१४</sup>; १०<sup>१५</sup>;  
 या १, ८<sup>१६</sup>; २, ११; ४, ६;  
 ६, २२<sup>१७</sup>; १३, १३; १४, १;  
 ३; १०; ११; ३५<sup>१८</sup>; ऋप्रा;  
 -ह्यऽह्य शैशि ३४१<sup>१९</sup>; -ह्यणः  
 आश्रौ १, १२, १××; शांश्रौ  
 ४, ६, १५; ७, १८××; काश्रौ  
 ७, १, ९; ९, ११, ३××;  
 आपश्रौ १, १५, ५××; वौश्रौ २,  
 ३ : १०; ५, १० : २५; ६, ३ :  
 १२; ३१ : ६××; भाश्रौ १,  
 ११, ६; माश्रौ १, ५, ५, १७;  
 २, २, ४, १८××; वाधूश्रौ ३, २४;  
 १०; ४, ३५ : ४; ६२; ५-७; हिश्रौ  
 १३, ४, ४; ५, २; १४, ४, ३२××;  
 जैश्रौ ९ : १७××; द्राश्रौ ४, २,  
 १२; ३, ६××; लाश्रौ २, २,  
 २१; ३, ६××; वैताश्रौ ११, ३;  
 ३६, २३; वृआपमं १, १४, १××;

a) स्तार्थे अण् प्र. 1 b) वत्त. 1 c) = पडह-विशेष- 1 d) दत्त. > पत्त. 1 e) वैप १ द्र. 1  
 f) पाभे. वैप १, २२९० p द्र. 1 g) व्यप. 1 h) वैप २ निर्दिष्टानां समावेशः द्र. 1 विशेषः टि. द्र. 1 i) २ब्राह्मण-  
 इति पागम. 1 j) पाभे. वैप १, २२९२ g द्र. 1 k) पाभे. वैप १, २२९२ c द्र. 1 l) तु. सपा. तैत्रा ३, १२, ९,  
 ७; वैतु. BC. ब्रह्मनामा इति 1 m) सपा. ब्रह्म संमितम् (तैत्रा १०, २६, १ च) <> ब्रह्मसंमिते इति पाभे. 1  
 n) = घन- 1 o) = ब्रह्म-चल- 1 p) = घन- 1

कौट १, ५, २९; पागृ १, ५, १०<sup>क</sup>; ३, १५, २३<sup>३</sup>; अमिगृ १, ५, २: २७<sup>क</sup>; वौगृ १, २, ३४××; मागृ १, ७, २; २२, ६××; वागृ ५, ५; २१××; ऋवैगृ १, १९: १२; ऋहियृ १, ११, १०××; गौपि २, ४, १; कौसू ३, २, ५४, २१; ८२, ५××; अप्राय १, ३; अप १, ६, १××; शंघ ८९; वौध २, ५, ११; ४, ६, ९××; विध २०, १५; ५५, १५; वैध १, ११, १०<sup>३</sup>; ३, ११, ३; गौध १, ६१; ८, २२; २३; १०, ४; वृदे १, १२२××; शुअ १, १९४××; चाअमू २; ५; चाअ १: १××; साअ १, ३२१××; अअ ६, ६; निध ५, ४; या ३, ११××; ऋप्रा १६, १२; कौशि ७१; पा ५, १, १३६; ४, १०४; मीसू १०, ३, ७२; -ऋंहाणः आश्रौ ४, ६, ३××; शांश्रौ; -ऋंहाण आश्रौ १, ६, १; २, १, १७××; शांश्रौ; काश्रौ २६, २, २६<sup>७</sup>; आपश्रौ १६, ३३, १<sup>०</sup>; वौश्रौ २, ६: ३५; १२: १०××; माश्रौ १, ५, १, ९; हिश्रौ ३, २, १; वैताश्रौ ५, ७; आपमं २, २२, १३<sup>७</sup>; हिगृ १, १३: १९<sup>७</sup>; १६, ६<sup>७</sup>; जैगृ १, १२: ५; ७; या ५, १४; -ऋणाम् कौसू ६५, १२<sup>क</sup>;

-ऋणि शांश्रौ ४, १०, ३<sup>क</sup>; आपश्रौ ६, ९, १; २२, १०, १४; वौश्रौ; हिगृ १, ५, १३<sup>३</sup>; १०, ६<sup>६</sup>××; आपघ १, १३, १६; वौध २, ७, १२; वैध १, ११, १४; हिध १, ४, ३०; कौशि ८१; पावा ६, ३, ८५; -ऋणे आश्रौ ५, १, ८<sup>क</sup>; १२, १५, १२<sup>३</sup>; शांश्रौ १४, १६, ८; काश्रौ; आपमं २, ८, ४<sup>७</sup>; १२, ६<sup>१</sup>; अमिगृ १, १, २: ४५<sup>क</sup>; ४६<sup>क</sup>; ४८<sup>क</sup>××; २, १, ४: ६<sup>क</sup>; वौपि १: ५, ६; भाग १, १९: ५××; मागृ १, १०, ४××; वागृ ५, ३९××; वैगृ १, १५: १०; २, १०: ८; १२: १२××; हिगृ १, ४, ६; ८<sup>३</sup>××; २, ३, १०<sup>१</sup>; गोगृ १, ९, १××; जैगृ २, ८: ६; द्रागृ २, १, २९; कप १, ८, १०; २, ४, १-५; ५, १; कौसू ५६, १३; ८३, ३२; अप्राय २, ६××; अप २, १, १××; शंघ २१: १३२; वौध २, १०, ४५; विध ६७, १९; वैध ३, ७, ६; गौध ५, १५××; या १४, ३५; शुप्रा ४, ७५; मीसू १०, ३, ६५; -ऋंहाण आपश्रौ १६, १, ३××; वौश्रौ; -ऋंहाण आश्रौ १, १२, १२××; शांश्रौ; या २, ४××; -ऋंहाण्यः आपश्रौ

२४, १२, ६; हिश्रौ; -ऋा आश्रौ १, ४, १; १२, ९; १३, ६; २, १६, २०; ४, १, ६××; शांश्रौ; काश्रौ २, १, १८<sup>क</sup>; ३, ४, २४; ४, ९, ६; ५, ६, ३३; ९, १०××; आपश्रौ २, ८, ७; ३, ३, ११; १८, १; ४; २०, ७××; २२, १७, १०<sup>क</sup>; माश्रौ १, ८, १, १<sup>क</sup>; हिश्रौ १७, ६, ४४<sup>क</sup>; पागृ ३, १५, २१<sup>म</sup>; २२<sup>म</sup>; वौगृ ३, १०, ६<sup>म</sup>; कौसू १७, ६<sup>३</sup>; ६८, ७<sup>३</sup>; ७५, १३<sup>३</sup>; १४०, ४<sup>३</sup>; अप २, २, ४<sup>३</sup>; ३, १, ८<sup>३</sup>; १०, १, १<sup>३</sup>; १७, २, १<sup>३</sup>; १९, १, ३<sup>३</sup>; ३१, १, ३<sup>०</sup>××; ४०, ५, १<sup>०</sup>; ६६, १, ३<sup>०</sup>; ७०<sup>३</sup>, १, २<sup>०</sup>; वाध ३०, ५<sup>०</sup>; शंघ १४<sup>०</sup>××; वृदे ३, १८; ६, १३६; ७, ७०; शुअ ४, १२६<sup>७</sup>; १२७; १४६; साअ २, २९४<sup>७</sup>; अअमू<sup>७</sup> २; २<sup>३</sup>; ३<sup>३</sup>; अअ १, १७; ३, ११; १२; १४××; या १, ८<sup>७</sup><sup>७</sup>; २, १२<sup>७</sup>; ७, ५<sup>७</sup>; १४, १३<sup>७</sup>; अप्रा; -ऋंहाणः आश्रौ ८, ११, १; शांश्रौ; या ५, ५; ११, ४; -ऋंहाणः शांश्रौ १५, १७, १; जैश्रौ ३: १७; द्राश्रौ १, ३, १०; लाश्रौ १, ३, ३<sup>७</sup>; आपमं; -ऋणाम् आश्रौ १, १, १६××; शांश्रौ; काश्रौ २, १, १८<sup>क</sup>; -ऋंहाणि आश्रौ ५,

- a) पामे. वैप १, २२९३ d द्र. । b) ब्रह्मणाऽनु इत्यस्य स्थाने ब्रह्मानु इति चौसं. । c) सकृत् पामे. वैप १, १५९३ i द्र. । d) पामे. वैप १, १३३३ e द्र. । e) पामे. पृ १६५९ j द्र. । f) पामे. वैप १, ६८९ b द्र. । g) सपा. ब्रह्मणि <> ब्रह्मणे इति पामे. । h) = २ब्राह्मण- । < ब्राह्मणे इति वा ब्रह्मणि इति वा [आपमं भू XXIV] । i) पामे. वैप १, २२९४ c द्र. । j) = पुरोधस्- । k) पामे. वैप २, ३खं. ब्रह्म तां २१, ३, ७ टि. द्र. । l) पामे. वैप २, ३खं. हविः तैत्र्या ३, ६, १ टि. द्र. । m) पामे. पृ १७५५ o<sup>१</sup> द्र. । n) °हृद इति पाठः? यनि. शोधः (तु. तां २५, १५, ३ वौश्रौ १७, १८: १) । o) = प्रजापति- । p) = ऋत्विज्- । q) व्यप. (ऋपि-) । r) = [दिव-पुरोधस्-] बृहस्पति- । s) ब्राह्मण इति पाठः? यनि. शोधः (तु. द्राश्रौ.) ।

१६, २५५<sup>३</sup>; शाश्रौ; आपश्रौ  
१५, ११, २<sup>३</sup>; वौश्रौ ९, ११ :  
१<sup>३</sup>; १४, १२ : ३०; भाश्रौ  
११, ११, १<sup>३</sup>; या १२, ३४<sup>३</sup>;  
-ह्राणिऽ-ह्राणि काश्रौसं ४ :  
१५<sup>३</sup>; -ह्राणौ वैश्रौ १०, १ :  
५; -<sup>३</sup>ह्राइन् आपश्रौ १८,  
१८, १०; वौश्रौ १२, १५ : १-४.

ब्राह्म<sup>८</sup> - ब्रह्मः आगृ १, ६,  
१<sup>३</sup>; वैगृ; कौसू ७९, ३२<sup>१</sup>; ३;  
ऋत् २, १०, १०९<sup>१</sup>; १६२<sup>१</sup>; पा  
६, ४, १७१; -ह्रस्व हिश्रौ १४,  
४, ३८<sup>१</sup>; आग्निगृ २, ६, १८; वैगृ  
१, ४ : २४; ५ : ८; ९ : १; ४,  
३ : १५; ५, ३ : ३; ६, २-३ :  
३; ४ : १२; ५ : ३; ७; ७ : ९;  
१४; ११ : ४; ११; १२ : ५; ८;  
१८ : ९; अप ५७, २, १; वाघ  
३, २६; शोघ ११; ५४; वौघ १,  
५, १२; विघ ५७, ७; ६२, २;  
वैघ २, २, २; वृदे ८, ९८; शुअ  
४, २१७; -ह्रस्व पावा ६, ४,  
१७१; -ह्रै वैगृ २, १० : १३;  
३, २ : ७; जैगृ २, ८ : २८; अप  
३०, ४, ३<sup>६</sup>; शंघ ४२<sup>६</sup>; आपघ  
२, ११, १७; वौघ २, १०, २२;  
३, ९, २०; विघ ६०, १; हिघ २,  
४, ३२; -ह्रैण मागृ १, ७, ११;  
वागृ १०, ११; वैगृ १, २ : ६; ५:

९; १३ : १; वाघ १, २१; २०,  
४५; वौघ १, ५, ११; विघ २४,  
३३; ६२, ६; वैघ २, १३, ५.

ब्राह्मी<sup>१</sup> - ह्री वैताश्रौ  
४३, ४७; अप १, ४४, १०<sup>१</sup>; ५०,  
१०<sup>२</sup>; अशां १६, १<sup>६</sup>; वृदे ६,  
१५२; शुअ २, ३८४; साअ १,  
३२१; ६२५; अअ ८, १०(५); ९,  
१; १५, १; ५××; -ह्रीभिः हिश्रौ  
१२, ६, २६; -ह्रीम् अप ७२,  
५, २; अशां १७, १<sup>६</sup>; वाघ  
२७, ११<sup>१</sup>; शंघ ३९६<sup>१</sup>; वृदे ४,  
११३; शुअ ३, ५८; -ह्रयः  
वृदे ८, १०९; उनिस् ३ : १५;  
८ : २८; पिं २, १५; -ह्रयाम्<sup>६</sup>  
अशां १८, २; १९, २.

ब्राह्मी-नायत्री-  
-ञ्यः अअ १५, २; ५.

ब्राह्मी-घृत- -तम्  
वैगृ ३, १५ : ९.

ब्राह्मी-पुत्र<sup>१</sup> - -त्रः  
वैगृ ३, १ : १५; वौघ १, ११,  
१८; विघ २४, २९; गौघ ४,  
३३<sup>२</sup>.

ब्राह्मी-रस-वि-  
पक् - ह्रैण शंघ ३९६.

ब्राह्म-देया(या-अ)नुसं-  
तान<sup>३</sup> - > तानिन्<sup>१</sup> - नी  
हिघ २, ५, ५०.

ब्राह्मदेवाः<sup>०</sup> हिघ २, ४,  
४१.

ब्राह्म-व्रत- -तम् वैगृ  
२, ११ : १; १३ : १६; -तस्य  
वैगृ २, १० : ९.

ब्राह्मक- पा ४, ३, ११८.

ब्राह्मण<sup>३</sup> - णम् आपश्रौ  
१०, १२, ८; १७, १९, ८; २४,  
१०, १८<sup>३</sup>; काठश्रौ २४; वौश्रौ  
१, १ : ३; ९ : १५××; वौश्रौ  
५४ : १६; वाधुश्रौ २, १० : ३;  
११ : ४××; वाश्रौ २, १, ६,  
३०; वैश्रौ ११, ५; ३××; हिश्रौ  
१२, ३, ७; २१, ३, १८<sup>३</sup>;  
जैश्रौ ७ : ९; ८ : २७; द्राश्रौ  
३, ४, ३; ४××; लाश्रौ ४, ५, ६;  
७, १२, ३-६××; निस् २, ६ :  
३५; १० : ११××; आगृ १, १,  
४; ४, ७, २२; शांगृ ६, ३, १४;  
आग्निगृ १, १, २ : ४६××;  
आपगृ १५, १०; वौगृ १, ७,  
३६××; वौपि १, १६ : ११××;  
वैगृ ४, १० : ३××; हिपि २१ :  
१३; गौपि २, ४, १२; जैगृ २,  
४ : १३; कौसू ६, २२; अप १९,  
३, ९××; आपघ १, १, १०××;  
वौघ १, २, ५८<sup>३</sup>××; हिघ १, १,  
१०××; वौश्रु ५ : ११××; शुअ  
३, १३६; चाअ ९ : १; साअ १,

a) तु. आन. । b) पामे. वैप १, १८६४ III द. । c) वप्रा. । विप. (शोकार- प्रह- मधुपर्क- प्रमृ.), नाप. (विवाह-भेद- ब्रह्मचारि-भेद- [वैघ १, ३, १; ३], तीर्थ-विशेष- [आग्निगृ २, ६, १ : १८ प्रमृ.], आसन- विशेष- [वैगृ १, ४ : २४ प्रमृ.] प्रमृ.) । अगत्ये तस्येदमादयर्थे वा अण् प्र. टिलोप-प्रतिप्रसवः (पा ६, ४, १७०; १७१) च । d) श्लघः इति पाठः? यनि. शोघः (तु. मूको.) । e) व्यप. (ऋषि-) । f) पामे. वैप १, २२९८ III द. । g) = ब्रह्म-लोक । h) = मुहूर्त-विशेष- । i) विप. (ऋन्- वाच्- प्रमृ.), नाप. । j) = श्रोपधि-विशेष- । k) = शान्ति-विशेष- । l) पूष. = (ब्राह्मविवाहोडा-) स्त्री- । m) = ब्राह्मविवाहोडा-संतति- । तुस. > पस. । सपा. ब्राह्मदे<sup>०</sup> < > ब्रह्मदे<sup>०</sup> इति पामे. । n) पाठः? तान- > -नः इति शोघः (तु. भाष्यम्, पामे. च) । o) ब्राह्म- ऽऽर्षदेवास इत्येवं शोधितस्वरूपोपक्रमस् स्वधिकारिणः इत्युत्तरादिः पाठ इहाऽप्रामाणिकः (तु. आपघ २, १२, ४) अन्वितध 'सन् सूत्रेण गतपूर्वेण २, ४, ३८ तच्छेयतया वा तद्व्याख्यानविधया वा योज्यः । p) एतल्लंङक-अन्ध-विशेष- । वैप १ द. ।

२६७××; या १, १६; ३,  
२०××; -णात् वौश्रौ २, १७ :  
१०××; वैताश्रौ ४३, ४५;  
आमिगृ १, ३, २ : ५××; वौगृ  
१, ३, ८; वौश्रु ६ : १३; वृदे;  
-णानि आपश्रौ २४, १, ३२;  
हिश्रौ १, १, ८; आगृ; चाअ ३० :  
१?; ४२ : १४; या ७, २४; १;  
-णं वौश्रौ १२, ९; ११; हिश्रौ  
१०, ८, ५४; १४, ४, ३२; शांगृ; पा  
२, ३, ६०; ५, १, ६२; -णेन  
आपश्रौ १२, १७, १०; वौश्रौ;  
या १, १५; १६.

ब्राह्मण-कल्प- -ल्पेषु पा,  
पावा ४, ३, १०५.  
ब्राह्मण-चोदित, ता- -ता  
निसू ६, ८ : ३.

ब्राह्मण-चोदित-स्व-  
-त्वात् निसू ४, १३ : ४.

ब्राह्मण-(ज>)जा<sup>b</sup>-जा  
वौश्रौ २०, १ : ४८.

ब्राह्मण-पठित- -तान्  
चाअ ३० : १.

ब्राह्मण-प्रतिषिद्ध-  
-द्धानि आपगृ ८, १२; भागृ १,  
२० : ९.

ब्राह्मण-लिङ्ग<sup>c</sup>- -ङ्गाः कौसू  
१, ६.

ब्राह्मण-वचन- -नम् अप  
४४, ४, ९.

ब्राह्मण-वत् निसू ६, ७ :  
२२.

ब्राह्मण-वत्- -वतः वौश्रौ  
१६, १९ : ८; १०; -वताम् वौश्रौ  
४, १ : २८; -वन्तः वौश्रौ २४,

७ : १५; हिश्रौ १, १, १८; -वान्  
वौश्रौ २३, १३ : ७.

ब्राह्मणवती<sup>d</sup>- -त्यः  
मीसू ५, ३, १९.

ब्राह्मण-वाद- -दः निसू  
२, २ : १९; -दाः या २, १६.

ब्राह्मण-विधि- -धिः  
कौसू १, ४.

ब्राह्मणविधि-विहि-  
त- -तानि वौश्रौ २७, २ : २१.

ब्राह्मण-विप्रतिपत्ति-  
-त्या निसू २, १ : ३०.

ब्राह्मण-विहित- -ताः  
निसू ६, ८ : ४; -त्वात् द्राश्रौ ३,  
२, १०; लाश्रौ १, १०, ७; -ते  
लाश्रौ १०, १०, ५; -तेषु मीसू  
१२, ३, ३१.

ब्राह्मण-व्याख्यात, ता-  
-तः आपश्रौ १२, १५, १६; हिश्रौ  
२३, ३, ३५; -तम् माश्रौ १, ६,  
४, २०; ३, १, २५××; वाश्रौ  
१, ४, ३, २१××; वैश्रौ; -ता  
वाश्रौ २, २, ५, २७; -ताः  
आपश्रौ १२, १४, ४××; माश्रौ;  
-तानि भाश्रौ १०, १३, ६; हिश्रौ.

ब्राह्मण-शब्द- -द्वः मीसू  
२, १, ३१.

ब्राह्मण-शेष- -षः  
आपश्रौ २४, १, ३३.

ब्राह्मण-श्रुति<sup>e</sup>- -न्तेः मीसू  
६, १, २६.

ब्राह्मणसंस्तुता मैत्र  
१५.

ब्राह्मण-समाप्ताय- -येन  
निसू २, १२ : ३.

ब्राह्मण-संपन्न, ज्ञा- -ज्ञम्  
वौश्रौ १७, २७ : २; -ज्ञाः वौश्रौ  
१४, ८ : १७; ३१; -ज्ञाम् वौश्रौ  
१०, १ : २.

ब्राह्मण-स्वर<sup>f</sup>- -रः भासू  
३, १५; २५; २७.

ब्राह्मणस्वर-स्वस्कार-  
नियम- -मः भासू १, १.

ब्राह्मणाच्छंसिन्<sup>g</sup>-  
-सिन् वैताश्रौ १२, ५; -सिनः  
आश्रौ ७, २, ३; ४, ३××; शाश्रौ;  
-सिनम् काश्रौ ९, ८, १०; ११,  
८; आपश्रौ; -सिना काठश्रौ  
१४२; वौश्रौ; -सिने शाश्रौ १२,  
९, ८; १३, १०, ९××; काश्रौ;  
-सी आश्रौ ४, १, ६; ५, ३,  
२१××; शाश्रौ.

ब्राह्मणाच्छंसि-आव-  
स्तोतृ-> स्तोत्रीय<sup>h</sup>- -ये काश्रौ  
२४, ४, ४५.

ब्राह्मणाच्छंसि-चमस-  
-सम् वौश्रौ १७, ८ : ३; ८; १२;  
-से वैश्रौ १५, ३८ : ४; हिश्रौ  
८, ८, ५५; -सैः वाश्रौ ३, १, २,  
३०.

ब्राह्मणाच्छंसिचम-  
स-मुख्य<sup>c</sup>- -ख्यः आपश्रौ १४,  
३, १०; -ख्यान् आपश्रौ १२,  
२९, ४; काठश्रौ १४४; माश्रौ  
२, ४, ३, १५; वैश्रौ १५, ३८ : २;  
हिश्रौ ८, ८, ५४; ९, ७, ४२.

ब्राह्मणाच्छंसि-पोतृ-  
नेष्टृ (ष्टृ-अ) च्छावाक- -कानाम्  
काश्रौ ८, ६, १९; वैश्रौ १४, १२ :  
१२.

a) णा [ः] इति पाठः? यनि. शोधः (तु. चाअ ७ : ५; ११ : १)। b) विप. (इष्टि-)| c) वस.।

d) विप. (इष्टिका-)| e) कासं. जीसं. पूष. = २ब्राह्मण-इति?। f) = भाषिक-स्वर-। g) वैष १ द.। h) विप-

(वर्मन्-)| छ> ईयः प्र. (पा ५, १, १३५)।

ब्राह्मणाच्छंसि-प्रभृ-  
ति-तीनाम् द्राश्रौ ४, २, ९;  
लाश्रौ २, २, १८.

ब्राह्मणाच्छंसिय-ये  
आपश्रौ १७, २१, ३.

ब्राह्मणाच्छंस्य<sup>a</sup>-  
-स्यम् माश्रौ २, २, ४, ४; -स्ये  
काश्रौ १८, ६, ११; माश्रौ ६, २,  
६, २; वाश्रौ २, २, ४, २३.

ब्राह्मणाच्छंस्य (सि-अ)  
श्रीत्-पोत्- -तारः काश्रौ ७,  
१, ९.

ब्राह्मणा(ण-अ)सुवाक-  
-कः शुअ २, ३७६.

ब्राह्मणा(ण-अ)नुसार-  
-रेण शुअ १, १३.

ब्राह्मणा(ण-अ)भिविहि-  
(ति >)ता- -ताः वौश्रौ १४,  
१५ : २; २२, २० : २४.

ब्राह्मणा(ण-आ)र्वेय-छ-  
न्दो-दैवत-विद्<sup>b</sup>- -वित् ऋअ  
१, १, १.

ब्राह्मणा(ण-अ)वेक्ष<sup>c</sup>-  
-क्षः आपृ २, १०; ३, ३.

ब्राह्मणिक- पा ४, ३,  
७२.

ब्राह्मणो(ण-उ)क्त, क्ता-  
-क्तम् वौश्रौ २७, २३; वैताश्रौ;  
-क्ताः काश्रौ १८, ६, ६; काश्रौसं;  
-क्तान् वैताश्रौ १७, ११;  
-क्तानाम् निसू २, ९ : ३१;  
-क्तानि वैश्रौ १, १ : ५××;  
१३, १८ : २?<sup>d</sup>; -क्तेन वैताश्रौ  
३१, १.

२ब्राह्मण<sup>a</sup>- पाग २, १, ५९;

४, १, ७३; ५, १, १२४; -फ०ण  
आश्रौ १, २, २७; शाश्रौ; -णः  
आश्रौ २, १, १२××; शाश्रौ; निसू  
२, ६ : ३६; ८ : १८××; फ०आपमं  
१, १०, ३; ६; २, १०, ७; १३,  
१२<sup>e</sup>; सु १६, ५; १७, १; आगृ  
१, १९, ११; ३, ८, ११; कौगृ १,  
२१, १२<sup>f</sup>; ३, १०, ३५××;  
शांगृ २, १७, २; ४, ७, ५५××;  
पागृ १, ३, ११; ११, २<sup>f</sup>; २, ३,  
७; ५, २; ३, ४, १२<sup>f</sup>; आम्रिगृ १,  
५, ५ : १<sup>f</sup>××; वौगृ १, २,  
४९<sup>f</sup>××; वौपि २, २, २××;  
भागृ १, १ : ७××; मागृ १, २,  
६××; वागृ ३, २; ५, २८; वैगृ १,  
१:१३; २, ८ : २; ६, १२:१××;  
फ०हिगृ १, २४, १<sup>f</sup>; २, ३, ७<sup>f</sup>××;  
हिपि ५ : ८; १९ : ९<sup>f</sup>; गोगृ १,  
४, १६; ९, १८××; गौपि २, ७,  
३६; फ०जैगृ १, २ : १८; १९; १२ :  
५४××; द्रागृ १, ३, ५; २, ४,  
१०××; कप्र १, १०, १२; २, १,  
१५××; कौसू १३, ७; २८, १<sup>f</sup>;  
५७, १६; १९××; अत्राय ५, १;  
६, ६; अप १, २५, २; ४३, ६××;  
वाध १, ४०; ४५<sup>f</sup>××; शंघ १०-  
१२; ७२; ८६××; आपघ १,  
३, २८; ५, १६; १४, २५<sup>f</sup>××;  
वौघ १, १, ११; २, १८; ५७<sup>f</sup>××;  
विघ २, १; ३, ५८; ७९××; वैघ  
२, १०, १; ३, ११, ३; हिघ १, १,  
१०३; २, १६; ४, ५४<sup>f</sup>××;  
गौघ २, २६; ७, ३; २५; ८,  
१××; काघ २७३ : ३; ८××;  
सुघ १३; ६७; आपृगृ; या १,

१६; फ०उ, २४; ३१; -हणम्  
आश्रौ ३, ११, ३; शाश्रौ; सु  
११, ३××; आगृ १, १९, १××;  
कौगृ २, १, १; ३, १३, ९; शांगृ  
२, १, १; पागृ २, २, १; आम्रिगृ  
१, १, १ : २; ४××; आपृगृ  
१, २१××; कागृ ४३, ४;  
वौगृ २, ५, २××; भागृ १,  
१ : ५××; मागृ १, ३, १<sup>f</sup>;  
वागृ ५, १; वैगृ २, ३ : २××;  
हिगृ १, १, २××; गोगृ २, १०,  
१××; गौपि १, १, ३; जैगृ १,  
२ : १९<sup>f</sup>××; द्रागृ २, ४, १;  
कप्र २, ५, ७; कौसू ६७, १××; अप  
१, ९, १××; वाध २, ८<sup>f</sup>; ४,  
३××; शंघ ३१; ३२××; आपघ  
१, १, १९<sup>f</sup>××; वौघ १, २, ८××;  
विघ ३, ७३××; हिघ १, १,  
२०××; गौघ ११, १२; शुअ १,  
४८४; ३, १३६; अत्र ४, ४०; ५,  
१८<sup>f</sup>××; या २, ४<sup>f</sup>; शैशि १३७;  
याशि १, ३; -णयोः वाध १२,  
३०; -णस्य आश्रौ ४, १५, ४;  
शाश्रौ; आपश्रौ २२, १३, ११<sup>h</sup>;  
सुसू २, १ : १; २; निसू ७, १ :  
५××; सु १६, ४; आगृ १, १९,  
५××; कौगृ १, ८, ३३××; शांगृ  
१, १४, १३××; पागृ १, ४, ८××;  
आम्रिगृ १, १, १ : १६××; आपृगृ  
११, १६; कागृ ४१, १××; वौगृ  
२, ५, ३××; वौपि १, ५ : ७××;  
भागृ १, २ : ६××; वागृ ५, ३××;  
वैगृ २, ४ : १××; हिगृ १, १,  
१७<sup>f</sup>××; हिपि ५ : ९; गोगृ  
१, १, १६××; गौपि २, ३, ३७<sup>f</sup>;

a) वैप १ द्र. । b) उप. <√विद् [ज्ञाने] । c) विप. ([ब्राह्मण-दृष्ट-]विधि-) । d) °णि इति पाठः? यनि. शोधः । e) सपा. आम्रिगृ २, १, ३ : २० ब्राह्मणान् इति पाठे. । f) णाः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. संस्कृतिः टि.) । g) शोधः ब्रह्मगवीम् टि. द्र. । h) पाठे. पृ १७६७ f द्र. ।

जैगृ १, ११ : १९××; कप्र ३, ८, १२××; कौसू ५, १५; ५७, १०××; अप्राय ५, २; अप ३०<sup>३</sup>, २, २; वाघ १, २४××; शंघ १६××; आपघ १, १, २७××; वौघ १, ५, १२३××; विघ २, ५××; वैघ १, १, ५××; हिघ १, १, २४××; गौघ १, ७××; सुघप ८५ : ६; पावा १, ४, २३; मीसू ५, ४, १०××; -णाः शांश्रौ १५, १४, ९××; काश्रौ; सु ४, ४××; कौगृ ३, ९, ५०; वैगृ ६७ : ६; आम्रिगृ २, ३, ३ : २८××; वौगृ ३, ८ : १; वौपि, १, १५ : १; वागृ १७, १७<sup>२</sup>क; वैगृ ५, १३ : ३; जैगृ २, ९ : ४; कौसू ६, २६××; अप ५, ४, ५××; वाघ ६, २५××; शंघ १११××; आपघ २, १६, ३; वौघ २, १, ३५××; विघ १२, ५××; वैघ ३, ११, ३; वृदे ५, १५८; चाअ ३०:१; निघ ३, १३क; या २, १०; ३, १६××; याशि २, १; नाशि १, ४, ३; मीसू ३, ५, ५४; -कंणाः आश्रौ ५, ७, ३; शांश्रौ ७, ६, ३; आपश्रौ; कागृ ४३, ५; कौसू ९१, २०; -णात् काश्रौ ९, ८, १०क; आपश्रौ; वैगृ १, १ : १२××; कौसू ४९, १२; वाघ १, ४३; शंघ २६०; ३२९; वौघ १, ४, ९××; वैघ ३, १२ : ४; -णान् आश्रौ ३, १४, १××; शांश्रौ; सु १४, ५; आगृ १, २२, १८××; कौगृ १, १७, ६××; शांश्रौ १, २५, ९××; पागृ १, १६, १०; १७, १××; आम्रिगृ १, १, १ : ६××; २,

१, ३ : २०क<sup>३</sup>; आपगृ ९, ४××; कागृ १२, २××; वौगृ १, १, १४××; वौपि २, ९, १४××; भागृ १, २१ : १३××; मागृ १, ६, ४<sup>२</sup>××; वागृ ४, २६××; वैगृ २, १ : ४××; हिगृ १, १, ६××; गोगृ १, ९, ५××; गौपि १, ३, ११××; जैगृ १, ६ : ३××; द्रागृ १, १, ३××; कप्र २, ९, ४; कौसू ६, २३××; अप्राय २, ९; अप १, ३१, ५××; अशां १२, ६××; वाघ २, ५××; शंघ १९८××; आपघ २, १०, १५××; वौघ १, ११, ३१; विघ २१, १××; वैघ ३, ९, २××; हिघ १, ८, १७××; गौघ १०, ९; अअ १०, ७क; -णानाम् आश्रौ ६, ११, १६; काश्रौ १, ६, १३; आपश्रौ; आपमं २, ५, १××; कौगृ ३, १४, २××; शांश्रौ ४, १, ४; आम्रिगृ २, ३, ३ : १५××; आपगृ १४, ६××; कागृ ४१, २१क; वौगृ २, ५, ६४××; वौपि २, २, १××; भागृ १, १० : ९क<sup>३</sup>××; वैगृ ३, १८ : ६××; हिगृ २, ११, ४<sup>२</sup>क; गोगृ ४, ३, २८; गौपि २, ४, १क; कौसू १, ८; कप्र ३, ९, ९; अप १, ६, ८××; वाघ १४, २४; शंघ १४९××; वौघ १, ५, ५६××; विघ १७, १४××; काघ २७०:३; सुघप ८८ : १; आज्यो ५, ३; मीसू ६, ६, १८××; -णाय आश्रौ २, १, ४××; शांश्रौ; आगृ १, २४, ११××; कौगृ २, ३, २××; शांश्रौ २, ५, ४; पागृ २, ३, ७××; आम्रिगृ २, २, ५:२०××; आपगृ १३, ५; कागृ

४१, १२××; वौगृ १, २, २१; वौपि १, ७ : ४; मागृ १, १८, ४; वागृ ५, २६××; हिगृ २, ६, १३; गोगृ १, ४, २५××; जैगृ १, १९:४१; द्रागृ १, ५, ३८××; कौसू १७, १९××, अप्राय ४, ४; अप ७, १, ११××; वाघ ४, ८; शंघ ८६××; आपघ २, ४, १६; वौघ २, ३, ५०; विघ ५०, ३३××; हिघ २, १, ६९; गौघ २०, १३; या ७, १३; -णासः वौघ २, ६, ३४क; -णे आपश्रौ १७, २६, १८; वौश्रौ; कौगृ १, ६, ७; शांश्रौ १, १०, ८××; भागृ २, २१ : १९; वागृ १३, ३; जैगृ २, १ : ३२; अप ४, २, ११××; या १३, ९; पा ५, १, ६२; पावा ३, १, १३१; -णेन शांश्रौ ३, १९, ९; आपश्रौ; सु १७, २; कौगृ ३, १२, १; आम्रिगृ २, ४, ६ : ३७××; वौगृ १, ७, १××; वैगृ ६, १२ : १२; कौसू ७३, १८; अप्राय ५, ६; अप ३२, १, १२क; शंघ ७५××; आपघ १, ९, १३; हिघ १, ३, १३<sup>२</sup>××; गौघ ९, १९; अअ ४, १९क; -णेभ्यः आश्रौ ६, ११, १६क; शांश्रौ; आगृ १, ८, १३××; कौगृ १, ८, २९××; शांश्रौ १, १४, ११××; आम्रिगृ २, ३, २ : ८××; आपगृ २२, २; वौगृ १, ४, ३८××; वौपि १, ६:१०××; वैगृ २, ८ : ४××; जैगृ १, ६ : ७××; गो १, २९; अप्राय ३, ७××; अप १, ४९, ५××; अशां १३, १; आपघ २, २६, १; वौघ २, ६, ५××; विघ ३, २६××; हिघ २, ५, १९६;

गौघ ५, ४४××; काघ २७० :  
 ८××; सुघ ५३; ऋअ ३, ३;  
 अअ ९, ४†; -णेणु शांश्रौ १४,  
 ३३, ९; वौश्रौ; आमिण्ट १, ३,  
 ४ : १५†××; वौण्ट १, २, ४९;  
 कप्र ३, ८, २१; कौस् ६५,  
 १५××; अप्राय ६, ६; शंघ  
 २४४; वौघ १, १०, २; विघ ३,  
 ९६××; या १३, ९; -णैः  
 †आपमं २, १४, ८<sup>a</sup>××; पाण्ट  
 १, १६, ६†<sup>b</sup>; आमिण्ट २, ३, ५ :  
 ९××; भाण्ट २, १७ : ३†; वौपि  
 २, १०, २; हिण्ट २, १५, ९†;  
 हिपि २० : ५; अप्राय ४, १;  
 अप ७०<sup>c</sup>, ११, १; विघ ३,  
 ७२××; वैघ ३, ८ : १; -णौ  
 आपश्रौ २०, ७, १; वैश्रौ १२, १ :  
 १५; हिश्रौ १४, २, ६; वौपि २,  
 ११, २.

ब्राह्मणी<sup>b</sup>- पा ४, १,  
 ७३; -णी द्राण्ट २, २, २२; वाघ  
 १७, ७८; २१, ११; शंघ ६५;  
 ३४१; गौघ ४, १८; आज्यो १२,  
 १; -†णीः आपमं २, ११, १३<sup>c</sup>;  
 आमिण्ट २, १, २ : १२<sup>c</sup>; वौण्ट  
 १, १०, ११<sup>c</sup>; भाण्ट १, २१ : ७<sup>c</sup>;  
 १३; हिण्ट २, १, ३<sup>c</sup>; -णीनाम्  
 आपश्रौ ५, ११, ७; वौश्रौ २, १६ :  
 ४५; भाश्रौ ५, ६, ७; हिश्रौ ३, ४,  
 ७; -णीभ्यः अशां १३, ३; -णीम्  
 वौश्रौ ५४ : ६; वैण्ट ६, १२ : १;  
 अप ३६, ५, ३; वाघ २०, ३४;  
 २१, १-३; आज्यो ३, ६; -ण्यः  
 आण्ट १, १४, ८; गोण्ट २, ४, ६;

७, १२; वैघ ३, ११, ३; साअ  
 १, ९२; -ण्या शांश्रौ १७, १५,  
 १२; लाश्रौ ९, २, ६; शंघ ४००;  
 -ण्याः आण्ट १, ७, २१; वाघ  
 १७, ४८; २१, १-३; -ण्याम्  
 वौण्ट १, ७, १; वैण्ट १, १ : १२;  
 ६, ७ : १; वाघ १८, १; ४; ६;  
 शंघ ३२९; ४०१; आपघ २,  
 १७, २१; वौघ १, ९, ६-८; वैघ  
 ३, ११, ३; १३, ११; १४, ७;  
 हिघ २, ५, ४९.

ब्राह्मणी-क्षत्रिया-  
 वैश्या- -श्यासु वाघ १७, ४७.

ब्राह्मणी-नामिन्-  
 -मी शंघ ३७७ : ६.

ब्राह्मणी-पुत्र- -त्रः  
 विघ १८, २; ३९; -त्राः विघ  
 १६, ६; -त्रेण गौघ २८, ३८;  
 -त्रौ विघ १८, ३८.

ब्राह्मण-क- पा ५, २,  
 ७१.

ब्राह्मणक- पा ४, ३,  
 ११८<sup>d</sup>.

ब्राह्मण-कन्या- -न्या  
 आमिण्ट २, ४, ९ : २.

√ब्राह्मणकाम्य>

काम्या- -न्या वौघ २, १०, ६०.

ब्राह्मण-कुमार- -रत्स्य वृदे  
 ५, १५.

ब्राह्मण-कुल- -लम् वाश्रौ  
 १, ५, ३, ११; गोण्ट २, ३, १; -ले  
 द्राण्ट १, ४, २; वाघ १०, २४.

ब्राह्मण-क्षत्रिय- -ययोः  
 शांश्रौ १, १, ३; -यौ विघ १८,

१२.  
 ब्राह्मण-क्षत्रिय-विट्-  
 छद्- -द्रान् वौघ २, ३, ११.  
 ब्राह्मण-क्षत्रिय-विट्-  
 शृद्- -द्राः वौघ १, ८, १<sup>e</sup>.  
 ब्राह्मण-क्षत्रिय-विश-  
 -विशाम् वाघ २१, १२.  
 ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-  
 -श्याः वैश्रौ १२, १२ : १;  
 वाघ २, २; विघ १८, २८;  
 -श्यानाम् आमिण्ट ३, १०, २ :  
 ११; सुघ ५; १०; -श्यैः वाघ  
 १८, ८.

ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-  
 रथकार- -राणाम् वाश्रौ १, १,  
 १, ४.

ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-  
 शृद्- -द्राः वाघ २, १; आपघ १,  
 १, ४; वैघ १, १, २; हिघ १, १, ४.

ब्राह्मण-न(व>)वी<sup>f</sup>-  
 -वीः हिघ १, ६, ६९<sup>f</sup>; -न्यः  
 आपघ १, २४, २<sup>g</sup>h.

ब्राह्मण-नान- -नम् वाश्रौ  
 ३, ४, १, ४१.

ब्राह्मण-गृह- -हे शंघ  
 ४०३; -हेषु शंघ ३९७; ४०४.

ब्राह्मण-जात- -तम्  
 आपश्रौ २०, ५, १५; हिश्रौ १४,  
 १, ४७.

ब्राह्मण-नुष्ट- -ष्टम् कौण्ट  
 १, १६, १५; शांण्ट १, २४, ६.

ब्राह्मण-त्तर्पण- -णम् माण्ट  
 १, १९, ५; २, १४, ३२; सुघप  
 ८६ : ४; अप ६८, २, ६१; शंघ

a) पामे. वैप १, २२९९ e द. । b) विप. (ब्राह्मसंवन्धिनी-] प्रजा- [आपमं २, ११, १३ प्रम्ट.], ऋन्-  
 [साअ १, ९२ प्रम्ट.], नाप. (ब्राह्मण-त्री- [वाघ १७, ७८ प्रम्ट.]) । c) सपा. पाण्ट १, १५, ८ मानुषीः इति पामे. ।  
 d) तु. पागम. । e) ष्यवैश्यश्च इति मूको. । f) वैप १ ब्राह्मणवी- टि. द. । g) परत्परं पामे. । h) टत्त-  
 रेण संधिरार्यः ।



३९०; गौध २६, १७; -णैः  
विध ४९, २.

ब्राह्मणतर्पणा (ण-अ)  
न्त,न्ता<sup>a</sup>- न्तम् काश्रौसं ५:१;  
८:१८; -न्ताः काश्रौसं ६: २०.

ब्राह्मण-दण्ड- -ण्डः गौध  
१२, ४३; -ण्डौ गौध १, २४.

ब्राह्मण-दार- -रान् वाध  
२१, १६.

ब्राह्मण-दूषण- -णम्  
वाध ६, २४.

ब्राह्मण-दूषयितृ- -ता  
विध ५, ९८.

ब्राह्मण-देवता-सर्वभूत-  
परीवादा(द-आ)क्रोश<sup>b</sup>- -शान्  
हिध २, १, ९४<sup>c</sup>.

ब्राह्मण-द्वेष्ट- -ष्टे या  
६, ११.

ब्राह्मण-धन- -नम्  
वैताश्रौ ३४, १८.

ब्राह्मणधन-वर्जम् विध  
१७, १३.

ब्राह्मण-निमन्त्रणा (ण-  
आ)दि- -दि वैगृ ४, ७: २.

ब्राह्मण-परिणी(त>) )  
ता<sup>d</sup>- -तायाम् शंध ३२९.

ब्राह्मण-पाणि-> ण्य  
(णि-अ)जकर्ण-स्तम्ब्रा(म्ब-अ)प-  
-म्बाप्सु आश्रौ ३, १४, १६.

ब्राह्मण-पुङ्गव- -वे अप  
९, ३, १.

ब्राह्मण-पूजन- -नम् विध  
५९, ३०.

ब्राह्मण-प्रिय- -०य विध  
९८, ३०.

ब्राह्मण-ब्रह्मवर्चसकाम-  
-मयोः काश्रौ ४, ७, ५.

ब्राह्मण-द्रुव<sup>e</sup>- -वे विध  
९३, २.

ब्राह्मण-भोजन- -नम्  
कौगृ १, ७, ४××; शांगृ ४, १६,  
५××; पागृ १, २, १३××; मागृ १,  
२०, ५; वैगृ ६, ५: ४; शंध ४४०;  
-ने आगृ १, १, २; -नैः कौगृ  
३, १२, ९.

ब्राह्मणभोजन-  
सुवर्ण-पशु-दान<sup>f</sup>- -नानि वैगृ  
६, ६: ५; ७: ७.

ब्राह्मणभोजना(न-अ)  
र्थ- -र्थम् आगिगृ ३, ३, १: १९.

ब्राह्मण-मात्र- -त्रम्  
आपध १, २४, ७; हिध १, ६, ५६.

ब्राह्मण-यज्ञ- -ज्ञः काश्रौ  
१९, १, १.

ब्राह्मण-राजन्य- -न्ययोः  
काश्रौ २१, १, २; आपश्रौ २४,  
१, १; हिश्रौ ३, १, ७; -न्यौ  
हिश्रौ १४, २, १८; वाध २, ४०.

ब्राह्मणराजन्य-चत्  
गौध १२, ११.

ब्राह्मण-राजन्य-वैश्य-  
-श्यानाम् काश्रौ १, १, ६; आपश्रौ  
१०, १२, १२.

ब्राह्मण-राजन्य-वैश्य-रथ-  
कार- -रेषु कौध १, ३, ९.

ब्राह्मण-राजन्य-वैश्य-  
शूद्र- -द्राः आपश्रौ १८, १९, २.

ब्राह्मण-रुक्षण- -णम्  
वाध ६, २३.

ब्राह्मण-वचन- -नान्

मागृ १, १३, १९; आपध २, १,  
१९; हिध २, १, १८.

ब्राह्मण-वत् कौध २, १,  
११; या ३, १६४; पागृ १, १,  
३७.

ब्राह्मण-वत्सा-> त्सा-  
ब्राह्मणीवत्स- -त्सयोः पावा १,  
२, ६८.

ब्राह्मण-वध- -धे कौध  
१, १०, १९; गौध २२, १०.

ब्राह्मण-वर्चस<sup>g</sup>- -सम्  
अप १, १७, १; -सेन वैताश्रौ  
१९, १६.

ब्राह्मण-वर्जम् विध ३,  
६३; ५, १××; गौध ११, १.

ब्राह्मण-वासिष्ठ- -ष्ठे  
पागवा ४, १, ९९<sup>h</sup>.

ब्राह्मण-विधवा- -वा  
आगिगृ २, ४, ९: २.

ब्राह्मण-विहित- -ताः  
हिश्रौ ३, १, ८.

ब्राह्मण-वृत्ति- -त्तिः  
सुध ६.

ब्राह्मणवृत्ति-ध- -धः  
शंध ३७६; ४०४; विध ५४,  
१५.

ब्राह्मण-वैश्य- -श्यौ  
वाध ३, २४; विध १८, १४.

ब्राह्मण-शासन- -नान्  
वृदे ७, १४.

ब्राह्मण-शूद्र- -द्रौ विध  
१८, १६.

ब्राह्मण-संज्ञक- -कः  
आगिगृ ३, १०, १: २; कौषि ३,  
५, १<sup>i</sup>.

a) वस. । b) दस.> षस.> दस. । c) सपा. आपध २, ५, १३ सर्वभू<sup>e</sup> इति पाठे. । d) विप.  
(शूद्रा-). e) उस. उप. <√वृ। f) दस.>दस.>षस. । g) वैप १ द. । h) ष्योः इति पाठः ।  
i) ञितः इति B. ।

ब्राह्मण-संनिधि- -धौ  
आमिष्ट २, ७, ११:८; ३, १२, १:  
१७.

ब्राह्मण-सप्तक- -कम्  
विध ९०, १०.

ब्राह्मण-संपद्- -पदम्  
वाध ११, २८; वौध २, ८, २२.

ब्राह्मण-संभाष, पा<sup>३</sup>- -षः  
भाष्ट २, ३२: ३; हिष्ट १, १४,  
२; १७, ६; -षाम् आमिष्ट २, १,  
१: ७; २: ८; भाष्ट १, २०: ११;  
हिष्ट १, २४, ८×४.

ब्राह्मण-संभाषा- -षा  
आपध २, २, ९; हिध २, १, ३१.  
ब्राह्मण-सात् कप्र २, ८,  
११.

ब्राह्मण-सामन्- -म  
निस् ७, ५: ३३.

ब्राह्मण-सुवर्ण-हरण-  
-णम् विध ३५, १; -णे वाध  
२०, ४१.

ब्राह्मण-सुवर्णा (र्ण-अ)  
पहरण- -णम् वाध १, २०.

ब्राह्मण-सूत-मागध-च-  
ण्डाल- -लान् गौध ४, १८.

ब्राह्मण-स्त्व- -स्त्वम् वौध  
१, ५, १०१; १०२<sup>२</sup>; -स्त्वानि  
आपध २, २६, २; हिध २, ५,  
१९७.

ब्राह्मण-हस्त- -स्ते काश्रौ  
२५, ४, २; -स्तेषु अप ४४,  
३, २; ४; ४, ७; शंघ २१४.

ब्राह्मणा(ण-आ)क्रोश-  
-शे गौध १२, ६.

ब्राह्मणा(ण-अ)मि-

-मौ शंघ ४११; ४३९.

ब्राह्मणा(ण-अ)जलि-  
-लिषु वैष्ट ६६: ७.

ब्राह्मणा(ण-अ)तिक्रम-  
-मः कप्र २, ५, ९<sup>०</sup>; वाध ३, १०;  
वौध १, ५, ८३; -मेण वौध १,  
५, ८२.

ब्राह्मणा(ण-आ)दि-  
-दिषु पावा ५, १, १२४; -दीन्  
काश्रौ २१, १, ७; १२; -दीनाम्  
वौध २, २, ५२; विध २२, ८.

ब्राह्मणादि-चतुष्टय-  
-ये अप ३६, ८, २.

ब्राह्मणादि-हत- -ते  
कप्र २, ७, ९.

ब्राह्मणादि-हीन-हत-  
-तः वैष्ट ५, ११: ३.

ब्राह्मणा(ण-२आ)द्य-  
-द्याः वौध १, २, १९; वैध ३,  
१५, १४; -द्यैः वैष्ट ७, ४: १०;  
वैध ३, ९, १.

ब्राह्मणा(ण-अ)नुज्ञात-  
-तः विध ७३, १०.

ब्राह्मणा(ण-अ)नुमत-  
-तः भाष्ट २, ५: ६; विध ४२,  
२; -ते शंघ ३९५; -तेन विध  
८१, १८.

ब्राह्मणा(ण-अ)न्तरित-  
-तम् विध २३, ४८.

ब्राह्मणा(ण-अ)पसद-  
-दाः विध ८२, ३०.

ब्राह्मणा(ण-अ)भिष्या-  
हार- -रः सुधप ८६: १४<sup>०</sup>.

ब्राह्मणा(ण-अ)भिशां-  
सन- -ने गौध २१, १७.

ब्राह्मणा(ण-अ)भिन्ना-  
चण- -णे सु १, ५.

ब्राह्मणा(ण-अ)भिहित-  
-तम् विध १९, २२.

ब्राह्मणायन- पा ४, १,  
१९; -नः<sup>d</sup> कौस् ३३, १९;  
-नम् कौस् ७८, ८; -नाः हिपि  
१४: १०.

ब्राह्मणा(ण-अ)र्ध- -र्थः  
विध १७, १४; -र्थे वाध २०,  
२७; वौध २, २, ७१; विध १६,  
१८.

ब्राह्मणा(ण-अ)र्षित-  
-तानाम् हिश्रौ २, १, ५५.

ब्राह्मणा(ण-अ)शौच-  
-चे विध २२, १४; १५.

ब्राह्मणा(ण-आ)श्रय<sup>१</sup>-  
-याः आमिष्ट ३, १०, ४: २२.

ब्राह्मणे(ण-इ)न्द्र-  
-न्द्राणाम् वेज्यो २.

ब्राह्मणो(ण-उ)च्छिष्ट-  
मार्जन- -नात् विध ९१, १८.

ब्राह्मणो(ण-उ)च्छिष्टा  
(ष्ट-अ)शन- -ने शंघ ३९६;  
विध ५१, ५३.

ब्राह्मणो(ण-उ)पवा-  
सन- -नम् वाश्रौ १, ४, ३, ४२;

ब्राह्मण्य- पा ४, २, ४२;  
५, १, १२४; -ण्यम् वौष्ट ३,  
१३, ९; कप्र २, १, १५; ४, १०<sup>०</sup>;  
अप ४१, ४, ६; ७; -ण्यात् विध  
५४, २७.

ब्राह्मण्या(ण्य-आ)  
दि-व्यवहार- -रः सुध ४२<sup>०</sup>.

ब्राह्मि<sup>१</sup>- -स्ये हिश्रौ १४,

a) वस. । b) णामि<sup>१</sup> इति जीसं. । c) सप्र. णामिव्याहा<sup>०</sup> <> ण्यादिव्यवहा<sup>०</sup> इति पाभे. ।

d) नाप. । जीवत्पितृको वा जीवत्स्यविरत्रात्को वा जीवत्स्यविरतरौ वेति दारिद्रः ।

e) ब्रह्म<sup>१</sup> इति मूको. ।

f) वैप १ द. ।

४, ३८१.

ब्राह्मण<sup>१</sup> > ०ह्य-वायव्य-  
-व्ययोः अशां ६, ३.

ब्रह्म-ऋषि- -षीन् शंघ ११६ :  
३१.

ब्रह्म-कर्मन्- -र्मं शांश्रौ ४, ६, १;  
८, १५, १५; -र्मणि वृदे ५,  
१५८.

ब्रह्मकर्म-समाधि<sup>१</sup> - -धयः  
अप ३०, १, ५.

ब्रह्म-कर्मा(र्म-आ)त्म-देवता-  
> ०त्य- -त्यम् अत्र ५, २४.

ब्रह्म-काण्ड- -ण्डम् अत्र  
१९, १.

ब्रह्म-काय- > ०यिक<sup>१</sup> - -०क  
विध २८, ३८.

ब्रह्म-कीर्ति<sup>१</sup> - -र्तिम् आमिगृ २,  
७, ६ : ११.

ब्रह्म-कूर्च<sup>१</sup> - -र्चः अप ३८, ३, २;  
वौष ४, ५, २५; -र्चम् आमिगृ  
२, ७, ७ : १.

ब्रह्मकूर्च-विधि- -धिम् अप  
३८, १, १.

ब्रह्मकूर्चो(र्व-उ)दक- -कात्  
आमिगृ २, ७, ७ : २१.

ब्रह्म-कृत- ( > ब्राह्मकृतेय-  
[> ०तेयी-] पा. यक.) पाग ४,  
१, १२३; ७३<sup>१</sup>.

ब्रह्म-कृति<sup>१</sup> - -तिम् आश्रौ ६, २,  
६१.

ब्रह्म-कोप-मय- -यः अप ५२,  
१४, १.

ब्रह्म-कोश- -शः पागृ ३, १५,

२३<sup>१</sup>; -शम् वौश्रौ ३, २३ :  
१०; पागृ ३, १५, २३.

ब्रह्म-क्षत्र- -त्राभ्याम् वौश्रौ  
१८, २ : १०; -त्रे शांश्रौ १४,  
२९, ३.

ब्रह्मक्षत्र-सुखा (ख-आ)  
वह<sup>१</sup> - -हः अप ५०, ६, ३.

ब्रह्म-क्षत्र-विश- -विशाम् शंघ  
१७८.

ब्रह्म-क्षत्रिय-विट्-शूद्र- -द्रान्  
अप ६३, ३, ८.

ब्रह्मक्षत्रियविट्-शूद्र-विनाश-  
-शः अप ६४, ८, ४; -शाय अप  
५८, १, ८.

ब्रह्म-क्षत्रिय-वैश्य- -श्यानाम्  
आज्यो २, ८.

ब्रह्म-ग(व>)वी<sup>१</sup> - -वीः अपंघः  
३५१; -वीभ्याम् कौसू ४८, १३;  
-वीम् अत्र ५, १८<sup>१</sup>; -व्याम्  
अपं २ : ४४; ५ : १११.

ब्रह्मगवी-देव(ता>)त<sup>१</sup> -  
-ताः अत्र १२, ५.

ब्रह्मगवी-देवता-> ०त्य-  
-त्ये अत्र ५, १९.

ब्रह्मगवी-ब्रह्मज्य<sup>१</sup> - -ज्यम्  
अत्र ५, १९.

१ब्रह्म-गव्य<sup>१</sup> - -व्यम् अत्र ४, २१.

ब्रह्म-गुप्त- पाग ४, १, ११२<sup>१</sup>;  
५, ३, ११६<sup>१</sup>.

ब्राह्मगुप्त- पा ४, १,  
११२.

ब्राह्मगुप्तीय- पा ५,  
३, ११६.

ब्रह्मगुप्तीय- पा ५, ३, ११६.

ब्रह्म-ग्रन्थि-यु(त>)ता-  
-ताम् कागृ ४३ : २.

ब्रह्म-घोष- -पेण अप ८, १, २.

ब्रह्म-घ्न- -घ्नेन कप्र ३, १, ७.

ब्रह्म-चमस- -सम् आपश्रौ १४,  
१०, ७; वैश्रौ १५, ३० : १२.

ब्रह्म-चर्य<sup>१</sup> - -र्यम् शांश्रौ ३, १३,  
३०; आपश्रौ ४, १, २××; वौश्रौ;  
आपमं २, ३, २६; आगृ १, २२,  
१; कौगृ २, ७, ५; १२; १९१;

शागृ १, १७, ५; २, १, १९; ११,  
६××; पागृ २, १, २४; ३, ६;  
६, २; आमिगृ १, १, ३ : ३१;

२, ६, ५ : २६; ७, ४ : १६××;  
आपगृ ८, ८; ९, ४; ११, ११;

कागृ २, ४; १९, २; ३०, १××;  
वौगृ २, ६, १७; ९, २४; वौषि १,  
९ : १४; ३, ४, २२; भागृ १,  
१० : १३; ३, ५ : २; ६ : २०;

१२ : ५; भागृ १, १, १८; २,  
६; १४, १४××; वागृ ५, १६१;

३४; ६, १४××; हिगृ १, ५, २१;

हिषि ८ : १०; गोगृ २, १०, १९१;

जैगृ १, २ : १८१; १२ : २४१;

१७ : २; द्रागृ ४, २, ४; कप्र ३,  
६, १४; ऋकौसू ५५, ९; ७३,

१०; १२५, ९××; शंघ ३९;  
१२६ : १९××; आपघ १, १,  
२८; २, ६××; वौष १, २, ५५;

५७१; ५८१××; विध २५, १४;  
२८, ४७××; हिध १, १, २६;

३९××; गौघ २, ११; ५२××;

a) साऽस्येदेवतीयः ण्यः प्र. उत्सं. (पा ४, १, ८५) । b) वस. । c) विप. (विष्णु-) ।  
d) = (पद्मगव्यनिर्वर्त्ये-) कृच्छ्र-विशेष- । e) ब्राह्मणकृतेय- इति भाण्डा. । f) वैप १, २२९५ b द्र. ।  
g) पाभे. वैप २, ३३. ब्रह्मणः तैवा ७, ४, १ टि. द्र. । h) पस. >उत्स. । i) वैप १ द्र. । j) ०वीत्रा<sup>१</sup>  
इति पाठः? यन्नि. च ब्रा<sup>१</sup> चेति शोधः । k) समाहारे द्रस. । l) पाठः? ब्रह्मा, ग<sup>१</sup> इति द्विपदः शोधः ( तु-  
सात., प्रकरणं च ) । m) तु. पागम. । n) ब्राह्म<sup>१</sup> इति पागम. ।

ऋञ्ज २, ३, १; या ६, २५; पा  
५, १, ९४; मौसू ६, १, २४; -ये  
शांशु २, ११, १३; भाग्य ३, १: ३;  
विध २५, १७; -र्षेण कौश ३,  
१२, १८९; अप १, ३८, १; अशां  
८, १; वाघ ११, ४८; वौघ २,  
६, ३५; ९, ७.

ब्रह्मचर्य-क्षति- -ति: आम्रिग्य  
२, ७, १: ३.

ब्रह्मचर्य-युक्त- -क्त: आपग्य  
९, १०.

ब्रह्मचर्य-वन्- -वन्ति वौश्रौ  
२१, १: ५; -वान् वाघ ११,  
४८; आपघ २, २१, ८; १९;  
वौघ २, १०, २; हिघ २, ५, ११७;  
१२८.

ब्रह्मचर्य-विधि- -धि: आपघ  
१, २, १८; हिघ १, १, ५१.

ब्रह्मचर्य-व्रत- -तम् वैघ २,  
२, ६.

ब्रह्मचर्या(र्य-अ)न्त- -न्ते  
काग्य १९, ३; जैग्य १, १७: ८.

ब्रह्मचर्या(र्य-आ)श्रम- >  
मिन्- -मी विघ ५१, ४३.

ब्रह्मचर्यो(र्य-उ)पपन्न- -न्नम्  
वाघ २, ९; विघ २९, १०; या  
२, ४.

ब्रह्मचारिन्<sup>१</sup>- पाग ५, १,  
१३०; -रिण: आश्रौ १०, ७,  
९; शांश्रौ १६, २, २६; निस् ८,  
४: ३४; आपमं २, २, १; कौश  
२, ३, १८; शांशु २, ६, ८; पाग्य  
२, १०, १४; आम्रिग्य २, ७,  
४: ४; वौघ २, ६, १०; १४; १५;

हिघ १, १५, ३; हिपि १४:  
१०; कप्र ३, ५, ६; कौसू ५६,  
१४; १४; अप १९, ३, २; २; २;  
वाघ ६, २०; आपघ १, २, १७;  
५, १०; १०; वौघ २, १, २४; २;  
विघ २५, १७; वैघ १, ३, १; १;  
हिघ १, १, ४४; ४; गौघ ३,  
४; या ५, २; -रिणम् आश्रौ  
८, १४, १; वाश्रौ; -रिणा कप्र ३,  
६, १४; विघ २८, ४१; -रिणाम्  
वाघ ६, १९; विघ २८, १; ६०,  
२६; -रिणि अप ३६, १, ४; ४;  
हिघ १, २, १०; पा ५, २,  
१३; १३; -रिणे आपश्रौ १३,  
१९, ९; वौश्रौ; -रिणौ आग्य १, ८,  
१०; आम्रिग्य १, ६, ३; ४; वौघ  
१, ५, १५; भाग्य; -र्षेण नि  
वौघ १, ८, ६; कौसू ५६, १२;  
-र्षिभि: आपमं २, ६, १; आम्रिग्य  
१, १, ३: २८; हिघ १, ५, १३;  
अप ३०, १, २; -रिभ्य: कौसू  
११, ६; ५५, १४; -री आश्रौ  
८, १४, १४; काश्रौ; आपमं २,  
६, १४; आग्य १, २२, २; २;  
कौश २, २, १५; पाग्य २, ३,  
२; शांशु २, ४, २; ५; गोश्रु  
२, १०, २९; द्राग्य २, ४,  
१९.

ब्रह्मचारिणी- -णी  
भाश्रौ १०, ९, ९; वैघ २, ३, १;  
आज्यो १२, ३; -णीम् आम्रिग्य  
१, ६, १: २; हिघ १, १९, २;  
अप ३६, १, २.

ब्रह्मचारिण- पा ५, १,

१३०.

ब्रह्मचारि-कल्प- -ल्पेन आग्य  
३, ५, १५; आम्रिग्य २, ४, ४: ४;  
काग्य ४३, २; वौघ ३, ७, ६.

ब्रह्मचारि-नात- -तम् वौघ  
१, ५, ४८.

ब्रह्मचारि-गृहस्थ-वानप्रस्थ-  
परिव्राजक- -का: वाघ ७, २.

ब्रह्मचारि-त्व- -त्वात् मौसू  
१०, ६, ३२.

ब्रह्मचारि-धर्मन्- -र्माणि  
वैघ २, ८: १३.

ब्रह्मचारि-वानप्रस्थ-भिक्षु-  
गुर्विणी-तीर्यानुसारिन्- -रिणाम्  
विघ ५, १३२.

ब्रह्मचारि-वास- -स: आपघ  
१, २, ११; हिघ २, ५, ११; ११;  
११५.

ब्रह्मचारि-वासस्- -स: हिघ  
१, ९, १०.

ब्रह्मचारि-व्रत- -तम् वैघ  
५, ७: ५.

ब्रह्मचारि-व्रत- -त:  
काठश्रौ २४; काश्रौसं २८: १७.

ब्रह्मचारि-संघ- -घम् आपघ  
१, ३, २६; हिघ १, १, १०१.

ब्रह्मचारि-सांपद- -दानि  
कौसू ११, १.

ब्रह्म-चित्<sup>२</sup>- -चित् वौश्रौ १९,  
७: ६०; ८: ३; -चित्त: वौश्रौ  
१९, ७: १.

ब्रह्म-चोदन<sup>३</sup>- -नौ वौश्रौ ६,  
१५: २८; माश्रौ २, १, ४,  
२७.

a) सपा. चरिते ब्र इत्यस्य स्थाने वौघ २, ७, १७ चरितब्रह्मचर्ये इति पाठे. । b) वैप १ द्र. । c) चन्द्र-मते पाठः  
(तु. पागम.) । सत्रब्रह्मचारिन्- इति भाण्डा. प्रन्. । d) सपा. ण्रिणः <> ण्रिणि इति पाठे. । e) सपा. ण्रिणः वासः  
<> ण्रिवासः इति पाठे. । f) पाठे. वैप २, ३६. ब्रह्मचारी माश ११, ५, ४, ५ टि. द्र. । g) उप. <√वस(निवासे)।  
h) सपा. आपघ २, २१, ३ वासः इति पाठे. । i) वस. । j) उप. <संपद्- । k) नाप. (चित्ति-) उत्स. ।

ब्रह्मजज्ञान<sup>a</sup>—>°न-सूक्त- -क्तेन  
अप १९<sup>२</sup>, २, ५; ३, ४.

ब्रह्मजज्ञाना(न-आ)दि- -दि  
वैगृ २, २ : ५.

ब्रह्मजज्ञानीय<sup>b</sup>- -ये जैगृ २,  
८ : १०.

ब्रह्म-जन्मन्- -न्म विध ३०, ४४.

ब्रह्म-जप- -पः आश्रौ १, १२,  
१०; २९; -पम् मागृ १, १०,  
१९; कौसू ३, ८; १३७, ४०.

ब्रह्म-जाया- -या ऋअ २, १०,  
१०९; वृदे २, ८२; ८, ३६;  
-याम् अत्र ५, १७.

ब्रह्मजाया-देवता->°त्य-  
-त्यम् अत्र ५, १७.

ब्रह्म-ज्य<sup>c</sup>- -ज्यम् अत्र १२,  
५ (३); -ज्यस्य आपश्रौ  
१३, १, ११; हिश्रौ ९, १, १०;  
-ज्येषु कौसू १४१, ७.

ब्रह्म-ज्येष्ठ<sup>c</sup>- -ष्ठा अप ३७,  
६, १; ४६, २, ६; ९, २१; १०,  
३०; अत्र १९, २२.

ब्रह्म-ज्योतिष्<sup>c</sup>- -तिः आपश्रौ  
११, १५, १; वौश्रौ ६, २९ : २०;  
वैश्रौ १४, १३ : ७; हिश्रौ १०,  
३, ४२; आम्रिगृ २, ५, ३ : २०;  
वौगृ ३, ७, १६.

ब्रह्मणस-पति->ब्राह्मणस्पत्य,  
त्या<sup>c</sup>- -त्यः आश्रौ ५, १४, ६;  
शाश्रौ १०, ३, ७; ४, ७; माश्रौ  
५, २, १०, ३३; शुश्र ४, ३८;  
-त्यम् शाश्रौ ७, १९, ११;  
आपश्रौ; -त्यस्य हिश्रौ २२, ४,

१०; -त्या सात्र १, ५६; १३९;  
अत्र ८, ६; -त्याः शाश्रौ ७, २६,  
२; ऋअ २, १, १८; -त्यानाम्  
आश्रौ ७, ३, ५; -त्यानि अत्र  
१९, ६१; -त्याभिः हिश्रौ ६,  
६, १६; -त्ये ऋअ २, १०,  
१५५; -त्यौ आश्रौ ७, ३, १.

ब्राह्मणस्पत्य-सामन्-  
-म जैश्रौका ५९.

ब्रह्मणो(णः-अ)यन- -नम् वौश्रौ  
१७, २७ : ६.

ब्रह्मण्य- पा ५, १, ७; -ण्य  
विध ९८, ३६; -ण्यम् अप २०,  
५, ३.

ब्रह्मण्य-पित्र<sup>d</sup>- -त्रैः अप  
२०, २, ९.

ब्रह्मण-न्त्र काश्रौ ३, २, १३;  
आपश्रौ.

ब्रह्मण-न्त्र- -न्त्रे शाश्रौ ९, २२,  
२; ४; वौश्रौ २३, ९ : १०;  
वाधूश्रौ ४, १०८ : ९१; -वन्तः  
वौश्रौ १८, ४६ : ४<sup>२</sup>; १४; १५;  
तैप्रा १३, १३<sup>१</sup>; भाशि ६३<sup>१</sup>;  
-वान् आश्रौ ४, १, २२.

ब्रह्मण्वती<sup>e</sup>->°त्या(ती-आ)  
दि- -दीनाम् शौच ४, ९९.

ब्रह्म-तर्पण- -णम् वैगृ १, ५ : ९.

ब्रह्म-तस्र (ः) अत्राय ४, १.

ब्रह्म-ता- पा ५, १, १३६.

ब्रह्म-तीर्थ<sup>e</sup>- -र्थेन शंघ ९२.

ब्रह्म-त्व- पा ५, १, १३६; -त्वम्  
काश्रौ २, २, २२; ११, १,  
१; आपश्रौ ३, २०, ११<sup>२</sup>xx;

वौश्रौ; -त्वे वौश्रौ २७, ६; १५;  
वैश्रौ २०, ३० : १०; -त्वेन वौश्रौ  
२, ३ : १९.

ब्रह्मत्व-कारिन्- -रिभिः  
द्राश्रौ १२, २, १०; लाश्रौ ४, १०,  
१०.

ब्रह्मत्व-नियम- -मात् मीसू  
६, ६, २४.

ब्रह्मत्व-प्रातिहर्त्र<sup>f</sup>- -त्रे काश्रौ  
२४, ४, ४४.

ब्रह्म-द<sup>g</sup>- -दः विध ३०, ४४.

ब्रह्म-दण्डा(ण्ड-आ)दि- -युक्त-  
-क्तानाम् कप्र ३, ५, १६.

ब्रह्म-दत्त- पाग ४, १, ९९<sup>h</sup>;  
-त्तम् वैगृ २, ७ : १३.

ब्रह्मदत्तायन- पा ४, १, ९९.

ब्रह्म-दान- -नम् कप्र २, ४,  
१९; -ने मीसू १०, ३, ७०.

ब्रह्म-दे(य)>या<sup>i</sup>- -या अप  
४१, ६, ५, ६; -याम् वागृ १०,  
१६; -यायाः कागृ १५, १.

ब्रह्मदेया(या-अ)नुसंतान<sup>j</sup>-  
-नः<sup>k</sup> वाध ३, १९; शंघ २००;  
विध ८३, १५<sup>l</sup>; गौध १५,  
२८.

ब्रह्मदेया-पति- -तिः शंघ  
२००.

ब्रह्मदेया-पितृ- -ता मागृ १,  
८, ६.

ब्रह्मदेया-प्रदायक- -कः शंघ  
२००.

ब्रह्म-देवता->°त्य<sup>m</sup>- -त्यः  
अप १, ४, ६.

a) < ब्रह्म जुज्ञानम् (मा १३, ३) । b) = साम-विशेष- । मत्वर्थीयः छः प्र. (पा ५, २, ५९) ।  
c) वैप १ द्र. । d) कस. समासान्तः षः प्र. उसं. (पा ५, ४, ७४) । e) = तार्थ्य-विशेष- । f) तु. चौसं. ।  
°प्रति° इति अच्यु. ? । g) उप. < √दा (दाने) । h) व्यप. । i) = (ब्राह्मविधिना देया-) कन्या- ।  
j) = पक्षिपावन-भेद- । पस. उप. = संतति- । k) पासे. पृ १८१८ m द्र. । l) वैतु. टीकाकारः (तु. Jolly) ।  
°य-अ° इति कृत्वा वस. पूष. = वेदाध्यापन-, उप. भाप. इति । m) विप. (अभिजिन्-नक्षत्र-) ।

ब्रह्म-देव-भूत-पितृ-नर-यज्ञ-  
-ज्ञान् विध ५९, २०.  
ब्रह्म-देव(व-ऋ)पिं-पितृ-वृष्य-  
(ति-अ)र्थ- -र्थम् वैगृ ३, २ :  
७.  
ब्रह्म-दैवत्य- -त्यम् वैघ २, १,  
९; चव्यू ४ : २४; -त्यौ वैगृ  
३, १७ : ६.  
†ब्रह्म-द्विष<sup>१</sup>- -द्विषः द्राश्रौ १०,  
२, १६; अशां १५, ५; -द्विषे या  
६, ३; ११६.  
ब्रह्म-नुत्त<sup>२</sup>- -त्तम् अप्रा ३, १,  
७६.  
ब्रह्म-पति- -तिः काश्रौ ५, १३,  
१६.  
†ब्रह्म-पत्नी- -त्नीषु आम्रिगृ २,  
५, ३ : २०; वैगृ ३, ७, १६.  
ब्रह्म-पद- -दम् वैगृ २, १८ :  
१५; ५, १ : १०.  
ब्रह्म-पर<sup>३</sup>- -रे शौच २, ६६.  
ब्रह्म-पलाश<sup>४</sup>- -शाः चव्यू ४ : २.  
ब्रह्म-पा<sup>५</sup>- -पाः आपश्रौ ४, ११,  
१६.  
ब्रह्म-पार्षद- -दान् वौघ २, ५,  
२०६.  
ब्रह्मपार्षदी- -दीः वौघ २,  
५, २०६.  
†ब्रह्म-पुत्र<sup>६</sup>- -०त्र कागृ ४१,  
१७; -त्रः आपमं १, १३, १०;  
वौगृ ४, २, ९; हिगृ १, १६, १८;  
-त्रम् आश्रौ २, १८, १२९;  
-त्रान् आम्रिगृ २, ४, ८ : १०;  
-त्रेभ्यः आम्रिगृ २, ४, ८ : ५.  
ब्रह्म-पुरुष<sup>७</sup>- -पः शंघ २०१;

-†वेभ्यः आगृ १, २, ६; आम्रिगृ  
१, ७, २ : ५; कागृ ५४, १५;  
मागृ २, १२, १६; वैगृ ३, ७ :  
१०; विध ६७, १९.  
ब्रह्म-पुरोहित<sup>८</sup>- -तम् वाध १९,  
४६.  
†ब्रह्म-पूत, ता- -तः वौघ २, ४,  
२४; १०, १५; -ता वौघ २, ५,  
११; -ताः आपश्रौ ४, ४, ४;  
भाश्रौ ४, ५, ५; वाश्रौ १, १, २,  
१७; वैश्रौ ४, ३ : ५; हिश्रौ १,  
४, ५६; ६, १, ५१.  
ब्रह्म-प्रजापति- पा, पाग २, ४,  
१४; -तिभ्याम् कौसू १३९, ६;  
-ती पागृ ३, ४, ८.  
ब्रह्मप्रजापत्या(ति-आ)दि-  
-दीनाम् पावा ६, ३, २५.  
ब्रह्मप्रजापत्योः (अयन-)  
लाश्रौ १०, १३, ८६.  
ब्रह्म-प्रथम<sup>९</sup>- -मान् वैश्रौ १२,  
१ : ४.  
ब्रह्म-प्रवा(द >)दा<sup>१०</sup>- -दाः निस्  
६, ७ : ४८; ८, ६ : १३.  
ब्रह्म-प्रवेदना(न-आ)दि- -दि  
आम्रिगृ १, ६, १ : १०; ७, ३ :  
११.  
ब्रह्म-प्रशास्त्र- -स्त्रभ्याम्  
जैश्रौका ११५.  
ब्रह्म-प्रसूत<sup>११</sup>- -तम् गौघ ११,  
१६६.  
ब्रह्म-प्रिय<sup>१२</sup>- -०य विध ९८,  
३७; -याय आम्रिगृ ३, ११, ४ :  
४०६.  
ब्रह्म-प्रोक्षि(त >)ता- -ताः

वौश्रौ २४, २५ : १३.  
ब्रह्म-बन्धु, न्यू- -न्धवे काश्रौ  
२२, ४, २४; लाश्रौ ८, ६, २८;  
-न्धुः वौश्रौ १८, २५ : ५८;  
हिपि १४ : ३; गोगृ २, ६, ८;  
कप्र ३, ६, ६; -न्धौ शांश्रौ १६,  
२९, ८; -न्ध्वाम् गौघ २२, २८.  
ब्रह्म-दल- -लम् माश्रौ ५, १,  
९, १९६.  
ब्रह्म-भक्ष- -क्षणाम् मीसू १०,  
२, १७.  
ब्रह्म-भाग- -नाः वौश्रौ २५, ६;  
९; -गम् आश्रौ १, १३, २;  
आपश्रौ ३, २०, ६; १०; वौश्रौ  
१, १८ : १८; ३, २५ : ११××;  
भाश्रौ ३, १८, ५; माश्रौ १,  
३, ३, १९; ५, २, १५, २२;  
वाश्रौ १, ३, ५, १३; वैश्रौ  
७, १४ : १०; हिश्रौ २, ८, ३६;  
४१; द्राश्रौ १२, ३, १७; लाश्रौ  
४, ११, १७; -गत्य शांश्रौ ४,  
७, १९; -गे आश्रौ १, १३, ५;  
शांश्रौ १, १२, ९.  
ब्रह्मभाग-यज्ञमानभाग-  
-गाम्याम् माश्रौ १, ५, ६, ७; ५,  
२, २, २१; -गौ वाश्रौ १, ३, ५,  
१३.  
ब्रह्म-भाजन<sup>१३</sup>- -नम् वौघ २,  
१०, ७२.  
ब्रह्म-भूत<sup>१४</sup>- -तः जैगृ २, ८ : २१;  
अप २२, १०, ५; वौघ २, ४, २४;  
३, ९, १५; या १४, १०; -तम्  
विध ४९, ८; -ताः वाध १९,  
४८.

a) वैप १ द्र. । b) वस. । c) अथर्ववेदशास्त्राविशेष- । उप. ? । d) उप. <√पा (रक्षणे) ।  
e) =देवता-विशेष- । f) =अमाङ्केय- । समासः ? । g) 'प्राजा' इति पाठः? यनि. शोधः (तु. Bw. M.W.) ।  
h) उप. <प्र√सू (प्रेरणे) । i) विप. (विष्णु-) । पस. वा वस. वा । j) उप. =पात्र- इति B.Gh., =पात्र-  
वा शरीर- वेति गोविन्दः । k) कस. (पा २, १, ५९) ।

ब्रह्म-भूय<sup>०</sup> -याय वौध २, ७, २८; १०, ७१; चव्यू २: ३४.  
 ब्रह्म-मय- -यः शुभ्र ४, २१९;  
 याशि २, ११५.  
 ब्रह्म-मुक्त- -क्तात् वैगृ ५, १ : २५.  
 ब्रह्म-भेध<sup>०</sup> - -धः हिपि १९ : १; १४; -धेन वैगृ ७, १:१०; वैध ३, ८, ४.  
 ब्रह्म-यजमान- -नयोः काश्रौ १, ८, २७; ५, ८, ३; आपश्रौ; -नाभ्याम् माश्रौ ४, २, ५; वाश्रौ १, २, ४, १; -नौ आश्रौ १, १२, ३५; ३, ६; काश्रौ.  
 ब्रह्मयजमान-भाग- -गौ आपश्रौ ३, ३, ९; भाश्रौ ३, ३, ८; वैश्रौ ७, २:१०; हिश्रौ २, ३, ३६.  
 ब्रह्म-यजमाना(न-अ)ध्वर्यु- -र्यवः वैश्रौ १६, २ : १७.  
 ब्रह्म-यज्ञ<sup>०</sup> - -ज्ञः आगृ ३, १, २; ३०; कौगृ; कप्र. २, ३, ३०; -ज्ञम् वैगृ १, ४ : २४; ६, ८ : २; १५ : २; वौध; -ज्ञस्य वौध २, ६, ८; -ज्ञाः आमिगृ २, ६, २ : २८; वौध २, ५, १४; -ज्ञात् कप्र २, ४, १२; १९; -ज्ञाय वैगृ ३, ७ : ६; -ज्ञे शुभ्र ३, १४७; -ज्ञेन वौगृ २, ९, १५; भागृ ३, १५ : २६; -ज्ञैः आमिगृ २, ६, २ : २९; वौध २, ५, १५.  
 ब्रह्मयज्ञ-तस् (: ) आमिगृ २, ६, ५ : १७.  
 ब्रह्मयज्ञ-विहीन- -ने वैगृ

६, ८ : ९.  
 ब्रह्मयज्ञा(ज्ञ-आ)घ(दि-अ)नु क्रम- -मात् आमिगृ २, ६, ७:१.  
 ब्रह्मयज्ञा(ज्ञ-आ)ग्म्भ- -ग्भे शुभ्र ४, १९६.  
 ब्रह्म-याग- -गः अप १९<sup>२</sup>, ५, ९; -गम् अप १९<sup>२</sup>, १, ३.  
 ब्रह्मयाग-विधि- -धिः अप १९<sup>२</sup>, ५, ८; -धिम् अप १९<sup>२</sup>, १, १.  
 ऋब्रह्म-यातु<sup>०</sup> - -तुः चाअ ३८:८.  
 ऋब्रह्म-युज्<sup>०</sup> - -युजा आश्रौ ७, ४, ७; वैताश्रौ ३५, १३.  
 ब्रह्म-योनि- -निः अप ३०, ३, १; -निम् शांगृ ६, १, १; आमिगृ २, ५, ३ : २३; वौगृ ३, ७, १७.  
 ब्रह्म-राज्- -राट् नाशि १, ५, १७.  
 ब्रह्म रात्रि, त्री- -त्रिम् वौध २, १०, २१; -त्री वौगृ २, १, १९<sup>२</sup>; -त्र्याम् विध १, १.  
 ब्रह्म-राशि- -शिः शुप्रा ८, २५<sup>६</sup>; -शेः अप ५२, ७, १.  
 ब्रह्म-रूप- -रूप विध ९८, २९; -रूपम् याशि २, ११४.  
 ब्रह्म(ह्य-ऋ)र्षि- -र्षयः विध २०, २६; वैध ३, ११, ३; ४, ८, ५; -र्षिम् शांगृ ६, १, १; ऋअ १, २, ३; -र्वीन् आमिगृ २, ६, ३ : ३६; वौध २, ५, २७.  
 ब्रह्मर्षि-गृह- -हेषु वैध १, ९, ३.  
 ब्रह्मर्षि-ता- -ताम् वृदे ४,

१५.  
 ब्रह्मर्षि-वंश- -ज्ञानाम् वैध ४, ८, ७.  
 ब्रह्म-लोक<sup>०</sup> - -कः वाध २९, ४; -कम् माश्रौ २, २, ४, ८; वाधूश्रौ ४, ३७ : १५; लाश्रौ; या १४, ९; -कात् वाध ८, १७; १०, ३१<sup>२</sup>; वौध; -कान् विध ९२, ७; -के वौश्रौ ५४:१९<sup>२</sup>; अप १, ५०, १०; वौध ४, ८, १५; १६; चव्यू.  
 ब्रह्मलोक-काम- -मेन विध ३०, ३१.  
 ब्रह्मलौकिक- -कः शंध ११.  
 ब्रह्म-वत् वैताश्रौ १, ७; आपध १, ५, ७; हिध १, २, ७.  
 ब्रह्म-व(त् >)ती- -त्यः अप ४६, ७, ४.  
 ब्रह्म-वध<sup>०</sup> - -धम् शांश्रौ १६, ४, ७; १३, १६.  
 ब्रह्म-वध- -धः अप ५०, ७, १.  
 ऋब्रह्म-वनि<sup>०</sup> - -नि काश्रौ ६, ३, ९; शुभ्र १, ३७२; शुप्रा ३, ९०; -निम्<sup>१</sup> आपश्रौ ७, १०, १२; वौश्रौ. ४, ४:३२x; माश्रौ.  
 ?ब्रह्मवर्चवृत्<sup>१</sup> भागृ १, १ : ८.  
 ब्रह्म-वर्चस्- -र्चसि आपमं २, ११, १६.  
 ?ब्रह्मवर्चस्-काम- -मः अअ ७, १<sup>६</sup>.  
 ब्रह्मवर्चस्-विन्- -विनः विध ७८, ४६; -र्चिन्माश्रौ १७, ४१ : ८; १७; आपमं २, ७, २५.

a) उप. भाष. । b) = संस्कार-विशेष- । c) = पञ्चमहायज्ञान्यतम- । d) = मन्त्र-संज्ञा- (कोऽसि कं [काठ ३७, १४] ) । e) वैप १ द्र. । f) = मातृ-विशेष- । g) = वेद-राशि- । h) पाप्मे. वैप १, २३०३ e द्र. । i) पाठः ? ब्रह्मवर्चयेत्, यत् इति त्रिपदः संस्कृतेः टि. शोधः । ब्रह्मवर्च-वृध्- > -वृत् इति तु विमृश्यम् । j) समासान्तविकल्पः उसं. (पा ५, ४, ७८) । k) °र्चसका° इति w. सात. ।

ब्रह्मवर्चस्विनी- नी  
 आनृ १,५,५.  
 ब्रह्मवर्चस- पा ५, ४, ७८;  
 -सम् शाश्रौ १४, २, ४; ९;  
 ४२, १२; १३××; काश्रौ ५, १३,  
 १<sup>२</sup>१<sup>०</sup>; आपश्रौ ५, २, ४; १०,  
 २८, ५<sup>१०</sup>××; वौश्रौ; वाघ<sup>१</sup>  
 १, १३; १५; शंघ ७<sup>१</sup>; आपघ  
 १, ३, २६<sup>१</sup>; वौघ १, १, २८<sup>१</sup>;  
 ३, २, ५; ४, २, ११; हिघ १,  
 १, १०१<sup>१</sup>; -सत्य वौश्रौ २,  
 १८ : ३९; ३, ७ : १०; -सात्  
 वौश्रौ २८, ११ : १५; -सानि  
 आपश्रौ २०, १२, ७<sup>१</sup>; १५, ३८ :  
 २; -नसाय आश्रौ १, ३, २३;  
 शाश्रौ; -से शाश्रौ १५, ४, ४;  
 जैश्रौ ९ : ११<sup>१</sup>; -नसेन आपश्रौ  
 ४, ८, १××; वौश्रौ.  
 ब्रह्मवर्चस-काम- -मः आश्रौ  
 ९, ५, ३; शाश्रौ; -मम् आपश्रौ  
 १७, १९, ६××; वाश्रौ; -मस्य  
 शाश्रौ २, १०, ३××; काश्रौ; -माः  
 आश्रौ ११, २, १०××; आपश्रौ;  
 -मानाम् काश्रौ २४, २, ५;  
 हिश्रौ १६, २, १७.  
 ब्रह्मवर्चसकाम-वीर्यकाम-  
 प्रजाकाम-प्रतिष्ठाकाम- -मानाम्  
 आश्रौ १०, १, ७.  
 ब्रह्मवर्चस-वीर्या( र्य-अ )न्ना-  
 च-प्रतिष्ठा-काम- -मानाम्  
 काश्रौ २२, ४, ३१.  
 ब्रह्मवर्चसिन्- -सिनः  
 आपश्रौ २३, २, १९; हिश्रौ  
 १८, १, २४; आपघ २, १६,

१०; हिघ २, ५, ११; -सिनम्  
 आनिनृ १, ३, ४ : २; -११  
 भाग २, २१ : ४; हिगृ १, १०  
 ६<sup>३</sup>; ११, ३; -सी काश्रौ ३,  
 ३, ५<sup>१</sup>; आपश्रौ ५, ३, ३; ६,  
 २३, १<sup>१</sup>××; वौश्रौ.  
 ब्रह्मवर्चस्य- पावा ५, १,  
 ३९; -स्यम् कौगृ १, २, ३<sup>१</sup>;  
 द्रागृ ४, २, ९; विघ ७८, १०.  
 ब्रह्मवर्चस- -र्माणि आपश्रौ  
 १६, १८, ७; वैश्रौ १८, १६ : ५;  
 हिश्रौ ११, ६, २९.  
 नृब्रह्म-वाद- -दम् आपश्रौ ५,  
 २, ४; वैश्रौ १, ७ : ७.  
 ब्रह्म-वादिन्- पावा ३, २, ७८;  
 -दिनः वौश्रौ १४, २ : ६××;  
 वाधूश्रौ ३, १० : १××; वैगृ १,  
 १५ : ८××; कप्र १, १०, ९; वौघ;  
 -दिना अप १३, ५, ५; -दिनाम्  
 विघ १, ५७; -दिभिः अप ७०<sup>३</sup>,  
 ११, १; विघ ९३, १२; -दिषु  
 वाघ २, ४१; वौघ १, ५, ७९.  
 ब्रह्मवादिनी- नी सात्र २,  
 ४४१; -न्यः वृदे २, ८४.  
 ब्रह्म-वाद्य- पा ३, १, १२३;  
 -घम् आपश्रौ २१, १०, १२<sup>१</sup>;  
 वाधूश्रौ ४, ६४ : ७.  
 ब्रह्म-वाहस- -०हः ऋप्रा ७,  
 ३१<sup>१</sup>.  
 ब्रह्म-विक्रयिन्- -यी शंघ २०१.  
 ब्रह्म-विद्- -विद् हिपि १ : १३;  
 -विद्ः आपश्रौ १०, ७, १३<sup>१</sup>;  
 वौश्रौ; हिपि १ : १३; आपघ  
 २, १७, ४; हिघ २, ५, ३२;

-विदा कौसू ७३, १८<sup>१</sup>;  
 -विदाम् अप ६९, १, १.  
 ब्रह्मवित्-न्तम- -माः अप  
 १३, ५, १.  
 ब्रह्म-विद्या(द्या-अ)पकारिन्-  
 -रिणः शंघ २३०.  
 ब्रह्मविराट्-तोऽन्व्यः अघ २,  
 १२.  
 ब्रह्म-वृद्धि- -दिम् अप ५०, ५,  
 ६; आपघ १, ३, ९<sup>१</sup>; हिघ १,  
 १, ८१<sup>१</sup>.  
 ब्रह्म-वेद्- -दः अप १, १५, १;  
 -दाय अप २, १, १; ३३, १,  
 १; अघमू ८; -दे अप २३,  
 १, २; -नृदेन कौगृ १, १०, १;  
 शागृ १, १६, ३.  
 ब्रह्मवेद-ज्ञ- -ज्ञः अप २, २, ३.  
 ब्रह्मवेद-न्तस् (ः) अप २, २, १.  
 ब्रह्मवेद-विद्- -विद् वैयाश्रौ  
 १, १; अप ३, ३, ७.  
 ब्रह्म-वैखानस- -सानाम् वौघ  
 ३, ३, १८.  
 ब्रह्म-व्यतिरिक्त- -क्तम् वैघ १,  
 ११, १०.  
 ब्रह्म-व्रत- -ते अप्राय ३, १<sup>१</sup>; ६,  
 ७.  
 ब्रह्म-शब्द- -दम् दंवि २, ८.  
 ब्रह्म-शरीर- -रम् वैगृ ३, २१ : ८.  
 ब्रह्म-शीर्ष- -र्यः विघ १, ३.  
 नृब्रह्म-संशित, ता- -तः आपश्रौ  
 १, ३, ६; शाश्रौ १, ४, १९;  
 आपश्रौ ३, १४, ३<sup>१</sup>; हिश्रौ २,  
 ६ : ३४<sup>१</sup>; तैप्रा १६, २५<sup>१</sup>;  
 -०ते शुप्रा २, २०<sup>१</sup>.

a) पृ १८२९ i टि. द. । b) सङ्ख् पाभे. वैप २, ३३. ब्रह्म तैत्रा २, ५, ७, ४ टि. द. । c) पाभे.  
 वैप २, ३३. ब्रह्मवर्चसुम् तैत्रा ३, ७, ७, १३ टि. द. । d) = (उपचारात्) प्रदेश-विशेष- । e) = (उपचारात्)  
 होम-विशेष- । f) वैप १ द. । g) = होम-विशेष- । h) = अथर्व-वेद- । i) वज्र. । j) पाभे. वैप १,  
 २२५५ इ. द. ।



ब्रह्म-सत्र- -त्रस्य जैगृ २, ८ :  
२७.

१ब्रह्म-सदन<sup>a</sup>- -नम् शांश्रौ ६,  
१२, २२; काश्रौ २, १, २१;  
आपश्रौ १२, २०, ७; वौश्रौ ३,  
२३ : २; ६, २९ : २०; भाश्रौ ४,  
५, २; वैश्रौ; -नात् काश्रौ २, १,  
२२; आपश्रौ ३, १८, ४१; भाश्रौ  
३, १४, २; हिश्रौ २, ८, ३; हिगृ  
१, १, २२; -नाय वौश्रौ ३, २३ :  
३१; -ने आश्रौ १, १२, ९; १३,  
६; काश्रौ २, २, १; आपश्रौ १७,  
२१, ७१; भाश्रौ ३, १४, ३; वैश्रौ  
१६, ७ : ११; हिश्रौ १०, ५, ५२;  
१२, ६, २६१; ऋश्रौ ३, ८;  
१३७, ४०; आपघ २, ४, ४;  
हिघ २, १, ५७.

२ब्रह्म-सद(न>)ना<sup>b</sup>- -नाः  
वौश्रौ १९, १० : ३६.

ब्रह्म-संतानक<sup>c</sup>- -काः अप ५२,  
४, ३.

ब्रह्म-संमि(त>)ता- -०त्ते मागृ  
१, २, २<sup>d</sup>.

ब्रह्म-समूह- -हम् वौपि २, १०,  
३.

१ब्रह्म-सव<sup>e</sup>- -वः निस् ७, १ :  
५; ७.

ब्रह्म-साम<sup>f</sup>- -मम् आपश्रौ १८,  
२०, २२; वौश्रौ १२, १८ : १८;  
१६, १४ : १७; २६, १४ : ११;  
हिश्रौ १३, ७, १०; -मेन अप्राय  
६, ३.

ब्रह्मसाम-त्व- -त्वात् लाश्रौ  
१०, ४, ४.

ब्रह्मसाम-पृष्ट<sup>g</sup>- -ष्टः क्षुस् २,

१४ : १५; १७; -ष्टौ क्षुस् २, ९ :  
२४.

ब्रह्मसाम-प्रभृति- -ति निस्  
३, ७ : ३.

ब्रह्मसाम-भूत- -तस्य लाश्रौ  
१०, ६, १.

ब्रह्मसाम-स्तोत्रीय- -न्यः  
निस् ७, ३ : १८.

ब्रह्मसामा(म-अ)च्छावाकसा-  
मन्- -मनी क्षुस् १, १० : ३;  
-मभ्याम् क्षुस् १, ५ : १५; १० :  
६.

ब्रह्मसामिक- -काः क्षुस् १,  
४ : १.

ब्रह्म-सामन्<sup>h</sup>- -म आश्रौ ६, ८,  
१२; ८, ६, १६; शांश्रौ; -मनी  
क्षुस् २, ४ : ३; ५ : २××; निस्  
१०, १ : २०; २४; -मभ्याम्  
निस् ७, ४ : ३९; -मानि क्षुस् २,

१४ : १६<sup>i</sup>; ३, १४ : ३; ६; ९;  
१३; १७; लाश्रौ १०, ८, ६;

निस् ६, ३ : ६; ५ : ९; -मनः  
क्षुस् १, ५ : २६; २, ४ : १८;

निस् ३, ७ : २; -मना शांश्रौ  
१५, १, २४; काश्रौ २५, १२,

१६; आपश्रौ १४, २५, ७; ८;  
वैश्रौ २१, ११ : ४; ५; हिश्रौ १५,

६, २५; -मनाम् निस् ३, ३ :  
२६; -मिन् आपश्रौ १८, ६,

७; वाश्रौ ३, १, २, २८; वैश्रौ  
१७, १० : ८; १६ : ४; हिश्रौ

१३, २, २२; द्राश्रौ ६, २, २;  
लाश्रौ २, १०, २; निस् २, ४ :

१९; ३५; मीस् ११, २, ४९.  
ब्रह्म-साम(म-ऋ)र्ग-यजुश्-

छन्दस्- -न्दः ऋप्रा १७, १८.

ब्रह्म-सावर्ण<sup>h</sup>- -र्णम् शंघ ११६ :  
४६.

ब्रह्म-सुवर्चला<sup>i</sup>- -लाम् विघ ५१,  
३२; ४६.

ब्रह्म-सूक्त- -क्तम् अत्र १, ३२;  
-क्तेन वौगृ २, ५, ३१; अप १९<sup>j</sup>,  
४, ४.

ब्रह्म-सूत्र<sup>k</sup>- -त्रस्य आमिगृ २,  
७, १ : १०.

ब्रह्म-सोम- -सौ वैगृ १, ९ :  
१७; ११ : ११; ६, १ : ९.

ब्रह्म-स्तम्भ<sup>l</sup>- -म्भाः वौश्रौप्र  
१७ : १२.

ब्रह्म-स्तेय- -यम् विघ ३०, ४२.  
ब्रह्म-स्थल- -ले आमिगृ २, ६,  
४ : २१; २५; शंघ १३२<sup>k</sup>.

ब्रह्म-स्थान- -नात् वैगृ ३, १६ :  
११.

ब्रह्मस्थान-वत् निस् ९, १० :  
३९.

ब्रह्म-स्व- -स्वम् वाध १७, ८५;  
८६<sup>l</sup>; वौध १, ५, १०<sup>m</sup>.

ब्रह्मस्व-न्यासा(स-अ)  
पहरण<sup>n</sup>- -णम् वौध २, १, ४१.

ब्रह्म-हत्या<sup>o</sup>- -त्या वौश्रौ २, ५ :  
१५१; वाधुश्रौ ४, ६० : ८; विघ

३५, १; -त्याम् वौश्रौ २, ११ :  
२११; वाधुश्रौ; वौगृ ३, ८, ६;

वाध २, ४२; २२, ६१; आपघ  
१, २५, ११; वौध १, ५, ७९;

२, १०, २१; ३, १०, ८१; हिघ  
१, ७, ७; गौध १९, १०; या ६,

२७; -त्यायाः वैश्रौ १८, १ : २;  
-त्यायाम् विघ ५, ४; -१त्यायै

a) पस. उप. = आसन-। b) = इष्टका-विशेष-। c) = ग्रह-विशेष-। d) पाप्मे. पृ १८१६ III द्र.।

e) वैप १ द्र.। f) वैकल्पिकः समासान्तः प्र.। g) = पडह-विशेष-। h) = मनु-विशेष-। i) = ओपधि-द्वय-  
(सु. शंघ ३९६)। मलो. कस.। j) नाप. (यज्ञोपवीत-).। k) = ऋषि-विशेष-। l) द्रस. > पस.।

वौश्रौ २९, ११: ४; वाश्रौ ३,  
४, ५, १७<sup>३</sup>; हिश्रौ १४, ५, ४<sup>३</sup>;  
वैश्र १, ७, २२.

ब्रह्महत्या-गुरुतल्पगमन-  
स्वर्णस्तेय-सुरापान- -नेषु  
वौष १, १०, १८.

ब्रह्महत्या(त्या-२आ)घ- -घैः  
वैश्र ६, १४: ३.

ब्रह्महत्या-व्रत- -तम् शंघ  
३८९; विध ५४, ९.

ब्रह्महत्या-सम- -मानि विध  
३६, १.

ब्रह्महत्या-सुरापान-स्तेय-गुरु-  
तल्प- -ल्पेषु गौष २४, १२.

ब्रह्म-हृत्<sup>३</sup>- पा ३, २, ८७; -घ्नः  
गौष २२, १; -घ्नम् विध १०,  
९<sup>०</sup>; -हृणि शंघ ३८३; -हा

वाघ ३, १७; २०, ४४; २७, १८;  
शंघ ११३; ३७५; ३७७: १;

३७९; ३८७; ४४१; ४५४;  
विध ४५, ३; ५५, २; सुध ५३;

वृदे ६, १५२.

ब्रह्मह-संस्तुत- -न्ताः आपघ  
१, १, ३२; हिघ १, १, ३०.

ब्रह्मह-सुराप-गुरुतल्पग-मातृ-  
पितृयोनिंसंघ-धान-स्तेन-नास्तिक-  
निन्दितकर्मिभ्यासि-पतितात्या-  
न्य(गि-अ)पतितत्यागिन्-  
-गिनः गौष २१, १.

ब्रह्मह-सुराप-सुवर्णस्तेय-  
गुरुतल्पग- -नानाम् सुध ५२.

ब्रह्म-हृदय<sup>३</sup>- येन वौष २, ४, ८.

ब्रह्मा(ह्य-अ)गार- -नात् काश्रौ  
१५, ८, १४; -रे काश्रौ १५, ४, ३.

ब्रह्मा(ह्य-अ)ञ्जलि- -लित्म् वैश्र

१, ४: २५; २, १२: १९.

ब्रह्माञ्जलि-कृत<sup>३</sup>- -तः आश्र  
३, ५, ११.

ब्रह्मा(ह्य-अ)ण्ड- -ण्डम् शंघ  
११६: ६७.

ब्रह्माण्डा(ण्ड-अ)ग्नि-  
-ग्निः अप ३, १, ८.

ब्रह्मातिथि<sup>१</sup>- -थिः ऋअ २, ८,  
५; साअ १, २१९.

ब्रह्मा(ह्य-आ)त्म-दैवत- -तम्  
अअ २, १; -ते अअ ७, १०४.

ब्रह्मा(ह्य-आ)दि- -दि अप ७०,  
१२, ६; -दिषु वैश्र ६, १२: ६; ९;

विध १७, १९; पावा ३, २, ८७;  
-दीन् काश्रौ १२, २, १५; वैश्रौ

१३, ७: २८.

ब्रह्मादि-दैव- -वानाम् वैश्र ३,  
२२: १२.

ब्रह्मा(ह्य-आ)दित्य- -त्यम् अअ  
५, ६.

ब्रह्मा(ह्य-२आ)घ- -घाः वैश्र १,  
२०: ३; ऋ १, १०, ८; -घैः  
अप २२, ८, ३.

ब्रह्मा(ह्य-अ)धिगुप्त- -सः आश्र  
२, ४, १४<sup>६</sup>.

ब्रह्मा(ह्य-अ)नुज्ञात- -तः काश्रौ  
३, ५, ५; २०, १, २६; पाश्र ३, ४,  
६; -ताः पाश्र ३, २, ११; १५.

ब्रह्मा(ह्य-अ)नुवचन- -ने गौष  
१, ५९.

ब्रह्मा(ह्य-अ)न्वाधान- -नम् वौष  
२, १०, १९<sup>१</sup>.

ब्रह्मा(ह्य-अ)भिगुप्त- -सः पाश्र  
३, ३, ६<sup>६</sup>.

ब्रह्मा(ह्य-अ)भिगूर्त- -तम् माश्र

२, ८, ६<sup>६</sup>.

ब्रह्मा(ह्य-आ)मन्त्रजा(ण-आ)  
दि- -दि काश्रौ ५, ९, २२.

ब्रह्मा(ह्य-आ)यतन- -नम् वौष  
१, ७, २३; -नात् माश्र १, २:  
१३; -ने आश्रिण १, १, १: १३;

माश्र १, २: ३; हिश्र १, १, १४;

वैश्र १, २३: ११; वौष २, १०,  
२०.

ब्रह्मायतन-वात- -नेषु ऋ  
५८<sup>३</sup>, ४, २.

ब्रह्मायतनी(य >)या<sup>३</sup>- -या  
लाश्रौ ६, ६, ८; १८; छुत् १, २:  
१२; १६; ८: १७; २, ३: ११;

नित् १, १०: २३; -याम् लाश्रौ  
६, ६, ४; ७, ३; ८, २.

ब्रह्मा(ह्य-आ)युस्- -युषा विध  
२०, १६.

ब्रह्मा(ह्य-आ)रम्मा(म्म-अ)वला-  
न- -नयोः विध ३०, ३२.

ब्रह्मा(ह्य-आ)वर्त<sup>१</sup>- -र्तम् अप  
५६, १, ९.

ब्रह्मा(ह्य-आ)ध्रम<sup>१</sup>- > ध्रिन्-  
-मी शंघ १५९: १४.

ब्रह्मा(ह्य-आ)सन- -नम् काश्रौ  
४, १०, ११; पाश्र १, १, २; द्राश्र  
१, १, २६; कौत् २, १८; ३, ५;

१३७, ३३; ३७; शुअ १, ३४६;

-नात् आश्रिण १, १, १: २३;

-ने माश्रौ ५, २, १५, ९; द्राश्रौ  
१५, ४, १; लाश्रौ ५, १२, ८; गोश्र  
१, ६, २१.

ब्रह्मास्कन्द<sup>१</sup>- -न्दः अअ ४, ३१.

ब्रह्मा(ह्य-आ)हुति- -तीः काश्रौसं  
६: १८.

a) पामे. वैश्र १, २३०४ g द. । b) वैश्र १ द. । c) घ्नः इति जीसं. । d) = अं नूः अं  
सुवः इति श्रुत्वाक- इति भाष्यम् । e) वस. । f) = ऋषि-विशेष- । g) सपा. धिगुप्तः <> धिगुप्तः <>  
धिगूर्तम् इति पामे. । h) = सतदशस्तीन-विष्टति- । i) नाप. (देश-). । j) = वानप्रस्थाधम- ।

ब्रह्मिष्ठ- -ष्ठः आपश्चौ ३, १८, १; -ष्ठम् काश्चौ २, १, १७; वाश्चौ १, १, ५, १; वैश्चौ ४, १ : १६; हिश्चौ ६, १, ४७.

ब्रह्मो(ह्य-उक्त)क्ता- -क्ताः कौसू ८२, ९.

ब्रह्मो(ह्य-उ)ज्ज<sup>३</sup>- -ज्जः वाघ १, १८; २०, १२; -ज्जम् कप्र ३, १, ८; -ज्जे वौश्चौ २, ५ : २३१.

ब्रह्मो(ह्य-उ)ज्ज<sup>३</sup>- -ज्जम् आपध १, २१, ८; हिघ १, ६, ३८.

ब्रह्मो(ह्य-ओ)दन->ब्रह्मोद-निक<sup>८</sup>- -कम् अग्निवृ ३, ७, ४ : २८.

ब्रह्मो(ह्य-उ)द्गावृ- -तारौ काश्चौ २०, ७, ११; हिश्चौ १४, २, १०.

ब्रह्मो(ह्य-उ)द्गावृ-होवृ- -वृम्यः काश्चौ १०, २, २५.

ब्रह्मो(ह्य-उ)द्गावृ-होवृ-यज-मान-चमस-सानाम् काठश्चौ १३८.

ब्रह्मो(ह्य-उ)द्गावृ-होत्र(तृ-अ) ध्वर्यु-ब्राह्मणाच्छंसि-प्रस्तोतृ-मैत्रावरुण-प्रतिप्रस्थानु-पोतृ-प्रतिहर्त्रे(तृ-अ)च्छावाक-नेष्टृ (ष्टृ-अ) शीत-सुब्रह्मण्य-प्रावस्तुद्-उन्नेतृ-तृन् काश्चौ ७, १, ७.

ब्रह्मो(ह्य-उ)द्य<sup>६</sup>- -द्यम् आश्चौ ८, १३, १३; १०, ९, १; काश्चौ १२, ४, १९; वौश्चौ १५, २८ : २९;

वाश्चौ ३, ४, ३, ५०; हिश्चौ १४, ४, ३२; द्राश्चौ ९, ४, १२; लाश्चौ ३, ८, ७; ९, १०, ८; निसू ४, ९ : १७; कौसू ३८, २५; शुभ्र ३, ३७; -द्यात् वैताश्चौ ३६, ३३; ३८, ५; -द्याय आपश्चौ २०, १९, ६; -द्ये निसू ४ ९ : १५; शुभ्र ३, २४.

ब्रह्मो(ह्य-उ)पवेशन- -नम् मागृ १, १०, १; -त्नेन द्राश्चौ ४, ४, १०; लाश्चौ २, ४, ५.

ब्रह्मौ(ह्य-ओ)दन<sup>९</sup>- -नः काश्चौ ४, ८, ७१; २०, ८, २९; वौश्चौ २, १४ : ९१; १५, ४ : ७; वैश्चौ १, ६ : २१; वैताश्चौ ५, ४; कागृ १३, ६; -नम् काश्चौ २०, १, ४; आपश्चौ ५, ५, १; ९××; वौश्चौ; -नस्य वौश्चौ २०, १६ : २४××; वाश्चौ १, १, ५, ४; हिश्चौ १४, १, २०; -नात् आपश्चौ ५, ५, ८; वैश्चौ १, ५; १२; -नान् आपश्चौ २०, २३, ८; ९; माश्चौ ५, २, १०, ११; वाश्चौ ३, ४, ५, २८; हिश्चौ १४, ५, १५; -ने आश्चौ १, ४, १; माश्चौ ५, २, १२; वाश्चौ ३, ४, १, १४; -नेन वौश्चौ ३, ३ : २१; २४, १९ : ९; वैश्चौ १, २० : १५; -नेषु वौघ १, ६, ३०; -नैः वौश्चौ १५, ३८ : ५.

ब्रह्मौदैनिक<sup>१</sup>- -कः वैश्चौ १, ६ : १२; -कस्य माश्चौ ५, २, १५, २५<sup>६</sup>; -कान् वौश्चौ २, १२ : ८; १०, ५० : ७.

ब्रह्मौदैनिक<sup>२</sup>- -कम् आपश्चौ ५, ४, १२<sup>१</sup>; ५, १; वौश्चौ २, ७ : १२; माश्चौ १, ५, १, १४<sup>१</sup>; वाश्चौ १, ४, १, ११; वैश्चौ १, ५ : ३<sup>१</sup>; ५; ८ : ७; हिश्चौ ३, २, ३५<sup>१</sup>××; -कस्य<sup>१</sup> वैश्चौ १, १० : ७; हिश्चौ ३, ३, ४२; -कात् आपश्चौ ५, १०, ७; हिश्चौ ३, ३, ६; ६, ५, २<sup>६</sup>; -के माश्चौ १, ५, २, ७; ३, १, ३५; वैश्चौ १, ६ : ७; ७ : १५; हिश्चौ ३, २, ५२; ३, २; -केन आपश्चौ ५, ७, ७.

ब्रह्मौदैनिक-लक्षण<sup>१</sup>- -णे वाश्चौ १, ४, १, २३.

ब्रह्मौदन-मित- -तम् कौसू ६८, ५.

ब्रह्मौदन-शेष- -षम् आपश्चौ ५, ५, १०; -षे माश्चौ ५, ३, १२.

ब्रह्मौदनिक<sup>३</sup>- -कम् अत्र ११, १.

ब्रह्मौदनिक<sup>४</sup>- -कः वौश्चौ २९, १२ : ७; -कम् भाश्चौ ५, ३, १<sup>१</sup>; वौषि २, ४, १४; कौसू ६०, १; ६७, १८; -कस्य भाश्चौ ५, ६, १<sup>१</sup>; -कात् भाश्चौ ५, २, २४<sup>६</sup>.

ब्रह्मौदनो(न-उ)च्छेष- -षेण आपश्चौ २०, २, ८.

वृहत्- प्रम्. √वृह् (वधा.) द्र. वृहस्पति(वप्रा.)<sup>०</sup>- पाग ६, २, १४०; पावा ६, १, १५७; -तये शाश्चौ ४, ७, १७<sup>१</sup>××; आपश्चौ; माश्चौ ५, १, ७, ४९; आग्निवृ १, २, २ :

a) विप. > नाप. । उप. कर्तृ प्र. । b) पस. उप. भाप. । c) = ब्रह्मौदैनिक- । d) उप. < √वृद् । e) वैप १ द्र. । f) तस्येदमीयः ठक् प्र. । g) स्वार्थे प्र. । h) = अग्नि-विशेष- । प्रयोजनार्थे ठक् प्र. (तु. रुद्रदत्तः [आपश्चौ ५, ४, १२.] । i) सपा. ब्रह्मौ<sup>०</sup> <> ब्रह्मौ<sup>०</sup> इति पाभे. । j) सपा. ब्रह्मौ<sup>०</sup> <> ब्रह्मौ<sup>०</sup> इति पाभे. । k) सपा. ब्रह्मौदैनिकात् <> ब्रह्मौदैनिकात् इति पाभे. । l) वस. । m) मत्वर्थे ठक् प्र. । n) = ब्रह्मौदैनिक- । प्रयोजनार्थे ठक् प्र. उलं. (पा ५, १, १०९) । o) वैप १ द्र. । विशेषः टि. द्र. ।

८; २<sup>a</sup>, ५, १: १६; १९; २७;  
३५; ४५; वैश्व २, १२ = १३<sup>b</sup>;  
३, २०: ४; ४, १४: १२<sup>a</sup>; जैश्व<sup>a</sup>  
२, ९: १२; २३; २६; ३०;  
३३; -त्ति: आश्रौ १, १२, ९<sup>†</sup>;  
१३, ६<sup>†</sup>; २, ११, २-४××; शाश्रौ;  
बौश्रौ १८, ४५: १४<sup>c</sup>; १६<sup>c</sup>;  
३३<sup>c</sup>; ३५<sup>c</sup>; ४६: ३<sup>d</sup>; ४७:  
४<sup>d</sup>; १०<sup>d</sup>; निसू ७, १: ११<sup>d</sup>,  
आश्व १, २१, ७<sup>†</sup>; शाश्व २,  
४, १<sup>†</sup>; पाश्व २, २, ७<sup>†</sup>;  
माश्व १, २२, १०<sup>†</sup>; वैश्व ४, १३:  
३<sup>e</sup>; हिश्व १, ५, ११<sup>†</sup>; कौश्व  
१०८, २<sup>†</sup>; अप ३३, १, २<sup>†</sup>;  
५१, १, ४<sup>†</sup>; २, १<sup>†</sup>; ७०<sup>†</sup>, ९, ५;  
७०<sup>†</sup>, २, १<sup>†</sup>; ११, १<sup>†</sup>; ऋश्व २,  
१०, ७<sup>†</sup>; ७<sup>†</sup>; वृदे २, ३९<sup>†</sup>;  
३, १३३<sup>†</sup>; १३७<sup>†</sup>; १५६<sup>†</sup>;  
४, १२<sup>†</sup>; १३<sup>†</sup>; ५, १०२××; ६,  
११२<sup>†</sup>; ८, २५<sup>†</sup>; शुश्व १, १२०<sup>†</sup>;  
४, १३७<sup>†</sup>; अश्व २०, ९<sup>†</sup>; १<sup>†</sup>; या  
२, १२<sup>†</sup>××; १०, ११<sup>†</sup>; शुश्रा २,  
४७<sup>†</sup>; ३, ५२; अप्रा ३, ४, १<sup>†</sup>;  
पि ३, ६३<sup>†</sup>; अनिसू ८: १८<sup>†</sup>;  
आज्यो ७, ९<sup>†</sup>; वैज्यो ३२<sup>†</sup>;  
-†तिना आपश्रौ १८, ४, ८××;  
बौश्रौ; वृदे ६, ११०<sup>d</sup>; -तिम्  
आश्रौ २, ११, ४<sup>†</sup>; शाश्रौ ६, ३,  
५; १४, २३, १<sup>d</sup>; ३३, १<sup>d</sup>; ३८, १<sup>d</sup>;  
काश्रौ; अप १, ४, २<sup>†</sup>; ४, १, २१<sup>d</sup>;  
७, १, २<sup>d</sup>; शंघ ११६: ४१<sup>b</sup>; नौघ  
२५, २; शुभ ४, २०४<sup>†</sup>; जम ३,

२६<sup>†</sup>; या ६, २३<sup>†</sup>; नाशि २, ६,  
५; -०ते आश्रौ १, १२, ९××;  
शाश्रौ; माश्रौ २, ३, ७, ४<sup>m</sup>; या  
४, २५<sup>†</sup>; -ते: आश्रौ १, १३,  
१<sup>†</sup>; शाश्रौ १६, १७, १; काश्रौ २,  
२, १<sup>†</sup>; आपश्रौ ३, १८, ४<sup>†</sup>××;  
अप ४८, ९४; बौघ ३, ९, १३;  
वृदे ४, १४२; ५, १०२; ७, १३७;  
८, १०५<sup>†</sup>; शुश्व १, ५५२<sup>†</sup>; चाश्व  
१५: २<sup>†</sup>; निघ १, १५<sup>†</sup>; या  
११, १२<sup>†</sup>; -तौ अप ६३, ४,  
२<sup>†</sup>; ७१, १७, १.  
बार्हस्पत्य, त्या<sup>OP</sup> - इत्यजैश्रौका  
९५; -०त्य<sup>m</sup> आश्रौ १२, ११,  
५××; आपश्रौ २४, ६, १८××;  
बौश्रौ १७: १९××; हिश्रौ २१,  
३, १०<sup>†</sup>; वैघ ४, ३, १; २; -त्य:  
आश्रौ ३, ९, २; शाश्रौ; कौश्व  
३, १०, ३२; शाश्व २, १५, ५;  
ऋश्व २, ६, १; ४४××; शुश्व १,  
२१०; ४९५××; साश्व १, ९;  
१९××; या ४, २१; -त्यम् आश्रौ  
१२, ८, ३७; काश्रौ; वाघ २८,  
१३; शंघ १०५; विघ ५६, १७;  
-त्यस्य शाश्रौ ६, १०, ५; काश्रौ;  
-त्या आश्रौ ९, २, ७; ९, ६<sup>†</sup>;  
काश्रौ; वैताश्रौ २७, ४<sup>†</sup>; ३६, ५<sup>†</sup>;  
कौश्व ३, १०<sup>†</sup>; अशां १६, १<sup>†</sup>;  
-त्या: शाश्रौ १६, ९, ३१; आपश्रौ;  
-त्याम् आपश्रौ ७, १२, ३; १०,  
१६, ३××; माश्रौ अशां १७,  
१<sup>†</sup>; -त्यायाम् आश्रौ ९, ४, ६<sup>†</sup>;

अशां १८-१९, २<sup>†</sup>; -त्ये बौश्रौ  
१७, ३९: १०; आमिश्व १, ३,  
१: ११; अप ३३, १, ७; वृदे  
७, १०७; १०८; -त्येन आपश्रौ  
४, ७, २<sup>†</sup>; बौश्रौ १२, ६: १४;  
माश्रौ ४, ११, १; हिश्रौ ६, २,  
१७; १३, ४, २९; -†त्येभ्य:  
कौश्व ३, १०, ६; शाश्व २, १४,  
७; -त्यै: विघ ९०, ३; -त्यौ  
आपश्रौ २०, १३, १२; बौश्रौ  
१५, २३: ७; २६: ८; हिश्रौ  
१४, ३, १४.

बार्हस्पत्य-त्रयोद(श->)

शा<sup>†</sup> -शा: बौश्रौ १०, २७: ३.  
बार्हस्पत्य-वर्जम् आपश्रौ  
१९, ८, २; वाश्रौ ३, २, ७, ६९;  
हिश्रौ २३, १, २९.

बार्हस्पत्या-मैत्रावरुणी-  
सौर्या(यां-आ)श्विनी- न्य:  
काश्रौ २२, ७, २०<sup>†</sup>.

बार्हस्पत्यौ(त्य-श्रौ)उन-  
देवता<sup>†</sup> -> त्य- त्या: अश्व  
११, ३.

बृहस्पति-जाया(या-अ)पहरण-  
-गम् अश्व ५, १७.

बृहस्पति-देवता-> त्य- त्ये  
अश्व ६, ३९.

बृहस्पति-नेत्र<sup>†</sup> -त्रा: भाश्व २, ६:  
८<sup>†</sup>.

†बृहस्पति-पुरोहित<sup>†</sup> -ता: हिश्व.  
२, १७, ४<sup>†</sup>; -०ता: आपश्रौ १६,  
१, ३; वैश्रौ १८, १: ८; हिश्रौ

a) = ग्रह-विशेष-। b) = स्मृतिकार-विशेष-। c) = पुरुवरः-पुरोहित-। d) = देव-पुरोहित-।

e) पामे. वैप २, ३३ं बृहस्पतिः मंत्रा १, २, २१ टि. द्र.। f) पामे. वैप १, १२४२ गृ द्र.। g) = आचार्य-  
विशेष-। h) = ऋषि-विशेष-। i) व्यप.। j) = [बृहती-द्वन्द्वः] देवता-। k) = पुण्य-देवता-। l) †ति:  
इति पाठः? यनि. शोघः। m) पामे. वैप १, २३०५ b द्र.। n) पामे. वैप १, २३०७ i द्र.। o) वैप १ द्र.।  
p) विशेषः टि. द्र.। q) = इष्टि-विशेष-। r) = शान्ति-विशेष-। s) वस.। t) तु. चौसं.।  
†त्यमै<sup>†</sup> इति अच्यु. ?। u) विप. (पर्याय-).। v) पामे. वैप १, २३०८ गृ द्र.।

११, १, ६; चाख ३८: १४.  
 बृहस्पति-प्रचोदित- -ता: वृदे ३,  
 १३६.  
 ऋहस्पति-प्रसूत<sup>१</sup>- -त: आश्रौ १,  
 १२, १२; १३, ७; वीश्रौ ३, १६:  
 १; १७, ३९; ११; वाश्रौ १, १, ५,  
 १०; आग्निष्ट १, ३, १: १२; कौसू  
 ९, ९.  
 बृहस्पति-बुध- -धौ अप ५२, ११, ५.  
 बृहस्पति-बुधे(ध-इ)न्दु- -न्दव: अप  
 ६८, १, ४.  
 ऋहस्पति-मत- -मत: काश्रौ १०,  
 ५, ९; ७, १३; वैताश्रौ १४, ७;  
 -मते शाश्रौ ६, ७, १०; -मन्तम्  
 शाश्रौ ६, ९, १३<sup>२</sup>; -मान् काश्रौ  
 १०, ७, १३.  
 बृहस्पति-युक्त- -क्तान् अथ ३, २६.  
 बृहस्पति-राजनृ<sup>३</sup>- -जान: काग २४,  
 १२<sup>४</sup>.  
 बृहस्पति-वचस्- -च: अप ४, २,  
 ११; ७०<sup>३</sup>, ११, ३६.  
 बृहस्पति-वत् आपश्रौ २४, ६, १८;  
 ७, ४; ६; वीश्रौ १७: २०;  
 १८: ३; १९: ८; हिश्रौ २१,  
 ३, १०<sup>३</sup>; वैष ४, ३, १.  
 ऋहस्पति-वत्- -वत: आपश्रौ १३,  
 १२, २; वीश्रौ ८, १२: १७;  
 वैश्रौ: -वते आश्रौ ५, १, १५;  
 हिश्रौ १६, ८, २३; -वन्तम् आश्रौ  
 ५, ३, १०<sup>४</sup>.  
 बृहस्पतिवती<sup>५</sup>- -त्या आपश्रौ ५,  
 २७, १३; वीश्रौ ६, ९: ४; १४,

१: २०.  
 बृहस्पति-शिरस्<sup>६</sup>- -रसम् कौसू  
 ४९, १५; -रसि अप ५: ९.  
 बृहस्पति-सर्व<sup>७</sup>- पाग ८, ३, ११०;  
 -व: शाश्रौ १५, ४, १; ३; काश्रौ  
 २२, ५, ११××; आपश्रौ २२,  
 ७, ५××; माश्रौ ४, १, ३; हिश्रौ  
 १७, ३, ४××; -वम् शाश्रौ  
 १३, २१, ६; वैताश्रौ २७,  
 १७; निसू १०, १३: २०;  
 -वे शाश्रौ १५, २, १५; वीश्रौ  
 २३, १८: १; २६, ८: ४; वैताश्रौ  
 ३९, ३; -वेन आश्रौ ९, ५, ३××;  
 काश्रौ १४, १, २; आपश्रौ १८,  
 ७, १७; वीश्रौ १८, १: १××;  
 वाश्रौ ३, १, २, ४६; वैश्रौ १७,  
 १८: १०; लाश्रौ ८, ७, ४××.  
 बृहस्पतिसवे( व-इ)न्द्रस्तुत्-  
 -स्तुतौ आश्रौ १२, १, ४.  
 ऋहस्पति-सुत<sup>८</sup>- -तस्य काश्रौ  
 १०, ६, १६; आपश्रौ १३, १४,  
 ७; वीश्रौ.  
 २बृहस्पति-सुत<sup>९</sup>- -ता: अप ५२,  
 २, ४.  
 बृहस्पति-स्तुति- -ति: वृदे ४, ८५.  
 बृहस्पत्या(ति-आ)दि- -दीनाम् अप्रा  
 १, १, ४.  
 बृहस्पत्यु(ति-उ)शनस्- -नसो: अप  
 ३, १, १३.  
 √वृ<sup>१०</sup> पाधा. क्रया.पर. भरयो.  
 वैक-नाट<sup>११</sup>- -टा: या ६, २६<sup>१२</sup>; -<sup>१३</sup>टान्  
 अप ४८, ११५; निघ ४, ३; या

६, २६.  
 ऋहस्पति-वेकुरा<sup>१४</sup>- -रा द्राश्रौ ३, ३, १७;  
 लाश्रौ १, ११, ९; निघ १, ११.  
 ऋहस्पति-वेकुरि<sup>१५</sup>- -रय: आग्निष्ट १, ५, २:  
 ४२; वैष्ट १, १८: ४.  
 √वेह्<sup>१६</sup> पाधा. भ्वा. पर. गतौ.  
 √वेह्<sup>१७</sup> पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ.  
 वैकि<sup>१८</sup>- (> वैकायन- पा.) पाग २, ४,  
 ६१.  
 १-२वैजवापि-, वैजवापीय- १वीज-  
 द्र.  
 वैजि<sup>१९</sup>- (> वैजीय- पा.) पाग ४, २,  
 १३८.  
 वैजेय- २वीज- द्र.  
 वैडालव्रतिक- विडाल- द्र.  
 वैडालिकर्णक<sup>२०</sup>- (> क्-कन्य-  
 पा.) पाग ६, २, १२५.  
 वैडालिकर्णि<sup>२१</sup>- (> ष्णि-कन्य-  
 पा.) पाग ६, २, १२५.  
 वैद- विद- द्र.  
 वैदल-, लक- विदल- द्र.  
 वैदायन-, १वैदी- विद- द्र.  
 २वैदी- (> वैदिका-, ष्की-) वैदि-  
 टि. द्र.  
 वैन्दव- २विन्दु- द्र.  
 वैभीतLदJक- विभीतक- द्र.  
 वैम्बकि- २विम्ब- द्र.  
 वैलायन- २विल- द्र.  
 १वैल्व- प्रभृ. १विल्व- द्र.  
 २वैल्व<sup>२२</sup>- (> वैल्वायन- पा.) पाग ४,  
 १, ११०.  
 १-२ वैल्वक- १विल्व- द्र.

a) वैप १ द्र. । b) पाभे. वैप-२, ३खं. बृहस्पतिमन्तम् शांता १२; ७ टि. द्र. । c) वस. ।  
 d) = ऋच्- । e) विप. > नाप. (ओदन-, पर्याय-) । वस. । f) = ऋतु-विशेष- । g) उप. = पुत्र- ।  
 h) तु. BFG. । i) वैप २, ३खं. द्र. । j) पाभे. वैप १, २३०८ ० द्र. । k) व्यप. । तु. पाका. ।  
 वैङ्कि- इति भाण्डा. प्रभृ.; वैकि- इति [पत्ते] पासि. । l) वैदजि- इति पाका.; वैजि- इति पासि. ।  
 m) वैडा<sup>२३</sup> इति पासि., वैडालिकर्ण- इति पाका. । n) वैडा<sup>२४</sup> इति पासि., वैटा<sup>२५</sup> इति पाका. । o) = ऋषि-  
 विशेष- । वैल्व- इति पाका., [पक्षे] पासि. ।

वैत्वकि<sup>a</sup>- (> कायन- पा.) पाग २,४,६१.

वैत्वज्ज [L,ल<sup>b</sup>]-] (> जक, लक-] पा.) पाग ४,२,५३.

वैत्वयत्<sup>c</sup>- (> ल्या- पा, पावा.) पाग ४,१,८०; पावाग ४,१,७९.

वैत्ववन- (> नक- पा, पावा) पाग ४,२,५३; पावा ४,२,५२.

वैव्यायन- रवैव- द्र.

वोद्धव्य- १-२वोध- प्रमृ. √वुध् द.

वोघायन- वौघायन- द्र.

वौघि<sup>d</sup> आपथ्रौ ६,१७, ८; १६,१३, १; वौथ्रौ १०,१८: १०<sup>e</sup>; वैथ्रौ १८,११: १८; हिथ्रौ ११, ५, १२; वैताथ्रौ ३६, २७; आपमं १, ४, १३; आमिगृ १, ५, ४: ६; शुअ २,१०३; दंवि १,८.

वोघित-, वोध्य- √वुध् द.

वौह्य<sup>e</sup>- > वौह्य-विहार- र: हिगृ २,९,१.

वौघ- √वुध् द.

वौ,वो<sup>f</sup>घायन<sup>g</sup>- न: वौथ्रौ ४, ११: ३०; ७, ४: २३; ११, २: २८; १४, १५: २०××; वौथ्र १, ७, ४७××; वौपि ३, ८, २××; वौघ १, ३, १३××; -नम् आमिगृ २, ६, ३: ३९; वौध २,५,२७<sup>h</sup>; -नस्य वौथ्रौ २०, १: ५१××; वौथ्रौप्र १: ७; ३१: १; ५४: ८; आमिगृ ३,६,२: ३; वौपि १, ९: १३; -ना: चव्यू २: ३६; -नाय

वौथ्र ३,९,६; भाग ३,११: ३<sup>h</sup>.

वौघेय-, १-२वौघ्य- √वुध् द.

वौमुक्ष- √भुज् (पालने) द्र.

√व्रण<sup>i</sup> पाधा. भ्वा. पर. शब्दे.

व्रध्न<sup>j</sup>- पाठ ३,५; -<sup>k</sup>ध्न शांथ्रौ ४, ९,२; काथ्रौ ३,४,१०; आपथ्रौ; -<sup>l</sup>ध्न: आपथ्रौ ५,१४,१३; २१, ९,१५<sup>l</sup>; भाथ्रौ; अप ४८, ६८<sup>l</sup>; ९३<sup>k</sup>; ९८<sup>l</sup>; निघ १,१४<sup>k</sup>; ३,३<sup>l</sup>; -<sup>m</sup>ध्नम् आथ्रौ ६,४,१०; शांथ्रौ; माथ्रौ १,३, ५,२६<sup>m</sup>; -<sup>n</sup>ध्नस्य आथ्रौ ६, २, १२; ११, ३, ७; शांथ्रौ; -<sup>o</sup>ध्नम् आपथ्रौ ३,१३, ५; भाथ्रौ २,८, ८; ३,१२, ३; हिथ्रौ २,६,३०.

व्रध्न-लोक- -क: अथ ११, ३, (३)<sup>h</sup>.

व्रध्न<sup>n</sup>- (> व्राध्नायन- ] > न्य- पा ५,३,११३] पा.) पाग ४,१, ९८.

व्रह्म-ऋषि- प्रमृ., व्रह्मन्- प्रमृ., व्राह्म-, व्राह्मक- प्रमृ. √वृह् (वधा.) द्र.

?व्राह्मगमनेष्ट्यादीनि शंघ ४७.

व्राह्मगुप्त-, ष्ठीय-, १-२व्राह्मण-, व्राह्मी- प्रमृ. √वृह् (वधा.) द्र.

व्रुव-, व्रुवत्-, व्रुवाण- √वृ द्र.

√व्रू<sup>p</sup> पाधा. अदा. उभ. व्यक्तायां वाचि, व्रवत् या १४, २६<sup>q</sup>; व्रवसि वाधूथ्रौ ४, ७५: १९; २१; २२; १०८: २१. व्रूते याशि १,९; व्रवीति वैघ २,

१२, ५; शुअ २, ३९०; व्रूत: काथ्रौ ३, ६, १५; व्रुवते आथ्रौ १२, ११,१; १२,१; ४; १३,१; शांथ्रौ ६,१,३; आपथ्रौ; <sup>r</sup>व्रुवीपि वौथ्रौ १८, ४७: १५; सु ६,४; व्रुवे कप्र २, ५, १५; <sup>s</sup>व्रुवीमि आथ्रौ २, ९,१०; आपथ्रौ; या ११,७; १४,२८<sup>r</sup>; व्रूमहे निस्र ९, ७: २१; व्रूम: निस्र ९,७: २२; <sup>t</sup>व्रुवीसू ९, २; ४; अप; या ११, ३८; ३९××; व्रुवीतु अप ५१, १,१; वृदे १,५२<sup>t</sup>; <sup>u</sup>व्रुवन्तु आथ्रौ २, १६, ७; १८, १५; शांथ्रौ; आमिगृ १, ५, ५: ११××<sup>u</sup>; व्रूहि <sup>v</sup>व्रुवांथ्रौ १, १४, १; ११; १५, १८, १; काथ्रौ; पा ८, २, ९१; <sup>w</sup>व्रुवात्<sup>v</sup> काथ्रौ ६, ८,१; वौथ्रौ ६, १४: ५; ६; ७<sup>v</sup>; ८, २०: १८<sup>w</sup>××; माथ्रौ २, १, ४, ६<sup>v</sup>; वाधूथ्रौ ३, ७९: २२<sup>v</sup>; २३; २४; <sup>x</sup>व्रुवाणि आथ्रौ २,८,७; ६, १, २; ७, ८, १; शांथ्रौ; सप्रवीत् आथ्रौ २, १३, ४; शांथ्रौ १२, २०, २<sup>x</sup>; २४, २<sup>x</sup>; आपथ्रौ; या ९,२०; अद्रूताम् वाधूथ्रौ ४,२: ५; ७; ९; १९: ४१××; वृदे ३, २१; तैपा ४,५२; सव्रुवन् शांथ्रौ १२, १६, १<sup>y</sup>; १४, ८-९,१; १५, १७, १; आपथ्रौ; या १३, १२; <sup>z</sup>व्रुवन् निस्र ९, ९: ५२; सप्रवी: आपमं २, १६, ४; भाग

a) व्यप.। b) पाका. पासि. पाठ:। c) वैक्ल्पयत्- इति [पक्षे] पाका.। व्यु: ? विल्व-यत्-> √वैल्वि >यनि. इति पागम.। d) वैप १ द्र.। e) =पलाश-वर्ण- वा कर्मनामन्-वेति भाष्यम्। f) प्रायेण आमिगृ. वौथ्र. वौपि. वौघ. पाठ:। g) =ऋषि-विशेष-। < वौघि- (पा ४,१,१०१)। h) तु. BFG.। i) सपा. हिथ्रौ १६,४,१३ इद्रुधु: (परि.) इति पागे.। j) =महत्-। k) =अध्व-। l) =अन्तरिच-। m) पागे. वैप १ लोके शौ ७,१०४,१ टि. द्र.। n) या २,२२; ५,१९ पा २,३,६१; ४,५३; ३,४,८४; ७,३,९३ पावा १,४-५१ परान्ष्ट: द्र.। o) मपु१ रूपम्। p) वैप १, २३१०। द्र.। q) पागे. वैप १, २३११ d द्र.।

२, ७ : १५; द्रुवीत् निसू ४, ११ :  
११; १८; गोष्ट ३, ५, २७; द्रुयात्  
आश्रौ ३, १, २०××; शांश्रौ;  
या १, ४; द्रुयुः शांश्रौ ३, १७,  
४; काश्रौ; ऋयूयाः शांश्रौ १५,  
२५, ११; वाध; या २, ४<sup>१</sup>.

द्रुव<sup>१</sup>— पा ६, ३, ४३; पाग ८, १,  
२७; पागम् ११४.

द्रुवत्—वतः वीध १, १०, ३२;—वति  
काश्रौ २, १२, ११;—वद्भिः  
वृदे १, १०;—वन् आश्रौ ५, १,  
१४; काश्रौ ८, २, १२; ११,  
१, ९; वीश्रौ;—वन्तम् जैश्रौका  
६; वृदे १, ९.

द्रुवती—त्यः अप ३६, २५,  
४.

द्रुवाण—-०ण जैश्रौ ३ : १६; ७ :  
३; जैश्रौका ८६; द्राश्रौ १, ३, ७;  
—णः आश्रौ ३, ११, २२<sup>१</sup>;—  
माश्रौ; अप्राय ४, ३<sup>१</sup>; आपध २,  
७, १७;—गम् आश्रौ ४, ८, ३०<sup>१</sup>;  
वृदे १, १३०.

√वृस् पाधा. चुरा. पर. हिंसायाम्.  
√व्ली<sup>१</sup> (= √व्ली, व्ली) पाधा. क्त्वा.  
पर. गतौ, वरणे धरणे च.

**भ**

१भ<sup>०</sup>— भः भाशि ५८.

भ-कार—>रा(र-आ)दि—दिभिः  
द्राश्रौ ६, १, १६; लाश्रौ २, ९,  
१२;—वौ शुभा ५, १३.

भ-पर<sup>१</sup>— रम् दंवि १, ४.

१भ-व-—वौ अप्रा ३, २, ३२.

२भ-— √भा द्र.

१, २भक्त-— √मञ् द्र.

√भक्ष<sup>१</sup> पाधा. भ्वा. उभ.<sup>१</sup>; चुरा. पर.  
अदने, भक्षति काश्रौ ९, ११,  
११<sup>१</sup>; भक्षामहे विध ८०, १४.  
भक्षयते माश्रौ १, ३, ३, १६; ७,  
२, १८; भक्षयति शांश्रौ ७, ४,  
१४××; काश्रौ; भक्षयतः काश्रौ  
९, १२, ३; आपश्रौ १२,  
२५, २<sup>१</sup>; ३; माश्रौ; भक्षयन्ते  
माश्रौ १, ७, ६, ४०; भक्षयन्ति  
आश्रौ ५, ८, ८××; शांश्रौ;  
ऋभक्षयामि आश्रौ २, १६,  
१९××; ६, १२, ११<sup>१</sup>; शांश्रौ;  
भक्षयामसि आश्रौ ५, २,  
८; भक्षयताम्<sup>१</sup> वाश्रौ ३, २,  
७, ७६; ऋभक्षयन्तु शांश्रौ  
४, २१, ८-१२; आपश्रौ;  
ऋभक्षय आपश्रौ १२, २६, ७;  
माश्रौ २, ४, १, ५५; वैश्रौ;  
ऋभक्षयत आपश्रौ ५, २५, २०;  
भाश्रौ; भक्षयम् या ११, १२<sup>१</sup>;  
भक्षयेत् आश्रौ २, ४, ५; ७, ३;  
१६, १९××; शांश्रौ; भक्षयेयुः  
आश्रौ ४, ७, ४; ५, ६, २५××;  
शांश्रौ; भक्षयेयाः सु १३, ५.  
भक्षयिष्यति वीश्रौ १८, २९ :  
१८; सु १७, ३; भक्षयिष्यामः  
द्राश्रौ ६, ३, १६; लाश्रौ २, ११,  
१०; निसू ३, ६ : २९.  
भक्षयां √कृ, भक्षयांचक्रुः वीश्रौ

१८, २९ : १७.

विभक्षयिषेत् आपश्रौ १२, २४,  
५.

१भक्ष<sup>१</sup>— पाग ६, १, १५६;—०क्ष  
काश्रौ ९, ११, २०; आपश्रौ;  
—क्षः ऋआश्रौ १, ७, ७<sup>१</sup>××;  
शांश्रौ; द्राश्रौ ७, १, २८<sup>१</sup>××;  
या ९, ८<sup>१</sup>; १०, ३;—क्षम्  
आश्रौ ४, ७, ४××; शांश्रौ  
९, ६, २१<sup>१</sup>; काश्रौ;—क्षस्य  
आश्रौ ५, ६, २३; ६, १३,  
९<sup>१</sup>; आपश्रौ; हिपि १८ :  
२३; पावा ६, ३, ६९;—क्षाः  
शांश्रौ ३, २०, १३; आपश्रौ;  
निसू ९, ८ : ७; सु १८,  
४; पा ४, २, १६; ४, ६५;  
पावा ४, ४, ६५;—क्षानाम्  
आपश्रौ ६, ३०, ९; २०; वीश्रौ;  
—क्षानि<sup>१</sup> अप्राय ३, ५;—क्षात्  
आश्रौ २, ९, ११; १२, ८,  
४०; शांश्रौ;—क्षाय काश्रौ १०,  
९, २९; आपश्रौ ४, १०, ७××;  
वीश्रौ;—क्षे शांश्रौ ६, ८, १४<sup>१</sup>;—  
हिश्रौ;—क्षेभ्यः वैश्रौ १३, ४ :  
१; द्राश्रौ ७, २, ११<sup>१</sup>; लाश्रौ  
३, २, ११<sup>१</sup>;—क्षेषु आश्रौ २,  
१९, ३०; ६, १०, २१××;  
काश्रौ;—क्षैः वीश्रौ ७, १८ ;  
१८××; शांश्रौ २, ८, २०.  
भक्ष-काल—ले अप्राय ३, ५.  
भक्षं √कृ<sup>१</sup>> भक्षं-कार— पावा  
६, ३, ६९.

a) पाभे. वैप २, ३खं. द्रुयात् ऐत्रा ७, १७ टि. द्र. । b) कर्तरि लच् प्र. (तु. पाका.) । c) पाभे.  
वैप १, २१३४ III द्र. । d) तु. माधा. BPG. । e) = वर्ण-विशेष- । f) वस. । g) पावा १, ४, ५२;  
३, २, १ परामृष्टः द्र. । h) तु. BPG. । i) भक्षयं इति चौसं. । j) पाभे. वैप १, २३१२ II द्र. ।  
k) पाठः ? 'ये' इति संभाव्यते । l) भाव., नाप. (सोम- [आपश्रौ १२, ७, १४ प्रमृ.] । वैप १ द्र. ।  
m) सपा. लाश्रौ ३, १, २७ भक्षयः इति पाभे. । n) अर्धर्चादित्वम् उलं. । o) सपा. भक्षैः <> मैक्षैः  
इति पाभे. । p) वैप १ द्र. ।

भक्ष-कृत<sup>१</sup>- -कृतस्य आश्रौ  
६, १३, ९; आपश्रौ ८, ३, १६; ७,  
१०; वौश्रौ ८, १७, १९; भाश्रौ  
८, ९, १५<sup>१०</sup>; हिश्रौ ५, १, ४१;  
२, ६१; ६२; -ताः वौश्रौ २०,  
२१ : २८.

भक्ष-च्छा, छ<sup>०</sup>न्दस्- -न्दोभिः  
द्राश्रौ ७, १, ३०; लाश्रौ ३, १, २९.  
भक्ष-जप<sup>१</sup>- -पः आश्रौ ३, ९, ५;  
४, ७, ४; ५, १३, ६; ६, ३, २२; ७,  
३, २, ३; -पान् अप्राय ३, ५.  
भक्ष-पवमान-परिधि-कपाल-  
मन्त्र- -न्त्राणाम् मीसू १०, ५,  
८८.

भक्ष-प्रतिषेध- -घः मीसू १०,  
७, ३५; -धात् काश्रौ १, २, ८;  
८, १, ६.

भक्ष-प्रभृति- -ति काश्रौ ९, १४,  
१.

भक्ष-प्रैषा(ष-आ)च्छादन-संज्ञस-  
होम-द्वेष- -षम् मीसू ६, ८, ३०.  
भक्ष-भक्षण- -णम् आश्रौ २,  
१९, १२; अप्राय ३, १०.

भक्ष-भोज्य- -ज्येषु अप ६४, ७,  
१०; -ज्यैः अप १९<sup>२</sup>, ५, ३.

भक्ष-भोज्या(ज्य-अ)न्न-पान-  
-नम् अप ७०<sup>२</sup>, ९, ४.

भक्ष-मन्त्र- -न्त्रः शांश्रौ ३, ८,  
२७××; आपश्रौ; -न्त्रम् आपश्रौ  
१३, १४, १४××; वैश्रौ; -न्त्राः  
हिश्रौ १६, २, १४; -न्त्रान्  
लाश्रौ ८, ९, १३; -न्त्रेण शांश्रौ  
७, ५, १; वैश्रौ १५, ३३ : ५;  
हिश्रौ ८, २, १८.

भक्ष-रहित- -तस्य वौश्रौ २७,  
५ : ९<sup>९</sup>.

भक्ष-वृत्- -वन्तम् हिश्रौ १५,  
७, ९.

भक्ष-वर्जम् काश्रौ १३, २, १४.

भक्ष-विकार- -रः मीसू ३, ५,  
४८.

भक्ष-व्यवाय- -ये हिश्रौ ८, ७,  
४०.

भक्ष-शब्दा(ब्द-अ)नभिसंबन्ध-  
-न्धात् मीसू १०, ७, १५.

भक्ष-शेष- -पान् माश्रौ २, ४, १,  
४६.

भक्ष-संचर- -रः माश्रौ ५, २,  
१६, १७.

भक्ष-हरण- -णम् काश्रौ ९, ५,  
२७.

भक्षा(क्ष-अ)नुवाक<sup>१</sup>- -कः वौश्रौ  
१४, ८ : ३७.

भक्षा(क्ष-अ)न्त-रहित- -तः  
वैश्रौ २०, २६ : १०<sup>९</sup>.

भक्षा(क्ष-अ)न्तरित- -तः वैश्रौ  
२०, २६ : १०; -तस्य वौश्रौ  
२७, ५ : ९.

भक्षा(क्ष-अ)पनय- -यः आपश्रौ  
१९, २१, ८.

भक्षा(क्ष-अ)भक्ष- -क्षस्य  
वाधुश्रौ ४, ४९ : २.

भक्षा(क्ष-अ)र्थ- -र्थः मीसू ३, ४,  
५०; -र्थाः वौश्रौ २६, ३० : ५;  
-र्थानि वौश्रौ २३, ३ : १८; २०.

भक्षार्थ-ता- -ता मीसू ३, २,  
२४.

भक्षा(क्ष-आ)वृत्- -वृता लाश्रौ

८, १०, १०<sup>१६</sup>.

भक्षा(क्ष-अ)व्रवण- -णात् मीसू  
३, ४, ४८.

भक्षो(क्ष-उ)पाय- -यः आश्रौ  
४, ७, ४.

भक्षण<sup>१</sup>- -णः आपश्रौ २२,  
२६, ४; हिश्रौ २३, ४, २०;

-णम् आश्रौ ५, ५, ११; २२;  
काश्रौ; -णस्य जैश्रौ २१ : १२;

-णा चात्र ३० : २२<sup>१</sup>; -णात्  
माश्रौ २, ४, २, ४१; ५, १, ४९;

४, ३, ३६; जैश्रौका १४१; विष  
५१, ७२; मीसू ८, २, ३; -णाय

या ६, २७; -णे वौश्रौ २१, २ :  
५; १३ : १९××; जैश्रौका १४०.

भक्षण-काल- -ले आपश्रौ १८,  
२१, ३; हिश्रौ १३, ७, १३.

भक्षण-परिषेचन- -ने आपश्रौ  
८, १६, ११.

भक्षणा(ण-अ)न्त<sup>१</sup>- -न्तानि  
कौसू ११, ११.

भक्षणा(ण-आ)प्यायन-सादन-  
-नानि आपश्रौ १२, २८, ३;

वैश्रौ १५, ३६ : ९<sup>१६</sup>.

भक्षणा(ण-अ)प्ररेक- -काय  
भाश्रौ १, १९, १२.

भक्षणीय- -यम् अप्राय ६, ३;  
वैध २, १५, ६.

भक्षमाण- -णम् शांश्रौ १५, १९, १.  
भक्षयत्- -यन् वौश्रौ २०, १२ :

१४; २१, २० : २५; सु १८, १;  
अप ३६, २, ६; -यन्तः काश्रौ  
२२, ४, ८; आपश्रौ ८, ३, १६<sup>१</sup>;

भाश्रौ; -यन्तम् आपश्रौ १४,

a) सुमागमः उरसं. (पावा ६, ३, ६९)। b) 'क्षकृ' इति पाठः? यनि. शोधः (तु.  
आश्रौ. प्रमृ.)। c) लाश्रौ. पाठः। d) नाप. (मन्त्र-)। e) सप्र. भक्षरहितस्य <> भक्षान्तरहितः  
इति पाठे.। f) = अनुवाक-। पस.। g) 'वृताः' इति पाठः? यनि. शोधः। h) भावि करणे च कृत्।  
i) पाठस्तुटितः। j) वस.। k) 'ति' इति पाठः? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ.)।



३०, ४; वैश्री.  
 भक्षयित्- ता विध ५, १७३;  
 ५१, ७८.  
 भक्षयित्वा आश्री २, ४, १२××;  
 शांश्री; भक्षयित्वाऽभक्षयित्वा  
 माश्री २, ४, १, ३८.  
 भक्षयिष्यत्- -प्यन् जैश्री १४ : ६;  
 -प्यन्तः शांश्री ७, ४, १३;  
 काश्री २२, ८, १९; २४, ३, १३;  
 लाश्री ८, ९, १२.  
 भक्षा<sup>१</sup>- (> भाक्ष- पा.) पाग ४,  
 ४, ६२.  
 भक्षित- -तः वायुश्री ४, ८६<sup>२</sup> : १२;  
 १३; अप्राय ३, ३; -तम् शांश्री  
 ७, ४, १५; माशि १५, ६; पाशि  
 २५; नाशि २, ८, १०; -तस्य  
 आश्री ६, १३, ९; शांश्री;  
 -तान् आपश्री १२, २५, ४; २४;  
 वैश्री १५, ३३ : ६; -तानाम्  
 आपश्री १२, २७, १०; हिश्री ८,  
 ७, ६४; -तानि वैश्री १५, ३२ :  
 ८; -ते वैश्री १५, ३७ : १२; जैश्री  
 १६ : ३; १८ : १५; जैश्रीका  
 १३८; १७९; वैताश्री १९, १८;  
 -तेषु जैश्री १७ : १; १९ : १;  
 १९; जैश्रीका १९६.  
 भक्षिता(त-आ)प्यायित- -तम्  
 शांश्री ७, ७, ३; आपश्री १२, २६,  
 ८; वैश्री १५, ३३ : १७; हिश्री  
 ८, ७, ७६; -तान् आपश्री १२,  
 २५, २७.

६, २२<sup>२</sup>; शंघ ११६ : ५९९<sup>१</sup>;  
 भक्षिन्- -क्षिणः आश्री २, ९, ११;  
 ५, १३, ३; ६, ३, २०; ७, ३, २४.  
 भक्षिचन्<sup>३</sup>- -वाणः आपश्री ३, २,  
 ११; माश्री ३, २, ४; हिश्री ६, ३, २.  
 भक्ष्य- फि ७७; -क्ष्यः लाश्री ३, १,  
 २७<sup>०</sup>; सु १३, १; १७, ३;  
 १८, ४; -क्ष्यम् जैश्रीका १३७;  
 लाश्री; -क्ष्याः निसू ६, १३ :  
 २८; शंघ २२२; २२४; वाघ  
 १४, ३९; वौध; -क्ष्याणाम् वौश्री  
 २८, १३ : १८; वौध १, ५, ६१;  
 -क्ष्यान् शंघ २२३; -क्ष्ये  
 आपध २, ५, ५; विध;  
 पा ७, ३, ६९; -क्ष्येण पा  
 २, १, ३५; -क्ष्यः आपध २, ६,  
 १४<sup>१</sup>; -क्ष्यौ वाघ १४, ४६.  
 भक्ष्य-द्रव्य- -व्यैः आम्रिगृ ३,  
 ३, १ : १३.  
 भक्ष्य-भोज्य- -ज्यानि आज्यो  
 ७, १.  
 भक्ष्यभोज्या(ज्य-आ)दिक-  
 -कम् शंघ २३३.  
 भक्ष्य-भोज्य-पान-शय्या ( ग्या-  
 आ ) सन-पुष्प-मूल-फल-  
 -लानाम् विध ५२, ८.  
 भक्ष्य-मांस- -सम् शंघ २२२.  
 भक्ष्य-वर्जम् विध २२, ७०.  
 भक्ष्य-विशेष- -पान् निसू ६,  
 १३ : ३४; वौगृ २, ११, १५.  
 भक्ष्यमाण- -णः अप्राय ३, ३;

-णम् सु १३, ३; -णाः अप  
 ६१, १, ११; विध ४३, ३४; ४०;  
 -णे अप ७०, ५, २.  
 भक्ष- √भन् द्र.  
 भक्ष<sup>०</sup>- > भाक्षि- -क्षिः वौश्रीप्र  
 ४६ : ३.  
 भक्ष-काल- प्रभृ. √भक्ष द्र.  
 भक्षाली- (> भाक्षालक- पा.) पाग  
 ४, २, १२७.  
 भक्षावृत्- प्रभृ. √भक्ष द्र.  
 भक्षास्थली- (> भाक्षास्थलक-  
 पा.) पाग ४, २, १२७.  
 भग, गा<sup>१</sup>- पाग २, ४, ३१<sup>६</sup>; ४, १, ४५;  
 ५६; -ङ्गा आपमं १, १४, ३<sup>१</sup>;  
 ५<sup>२</sup>; वौगृ २, ६, १०<sup>२</sup>; १२;  
 जैगृ २, ३<sup>३</sup>; ७<sup>३</sup>; -ङ्गाः आश्री ८,  
 १, २३; २, ५, ५<sup>१</sup>; शांश्री; आपश्री  
 ८, १८, ४<sup>१</sup>; माश्री १, ३, ४, २३<sup>६</sup>;  
 वाश्री १, ३, ६, १६<sup>६</sup>; आपमं १, १,  
 २<sup>१</sup>; १६, १<sup>३</sup>; आम्रिगृ १, ५, १ :  
 २<sup>१</sup>××; कागृ २५, १<sup>१</sup>; वौगृ १,  
 १, १५<sup>१</sup>; वागृ १०, ७<sup>१</sup>; अप १,  
 ४, ३९<sup>१</sup>; ४८, ९०<sup>०</sup>; वृदे ५,  
 १४७<sup>१</sup>; १६८; १६९; ६, ८९;  
 ७, ११४<sup>१</sup>; ८, १२८××; साख;  
 निघ २, १०<sup>०</sup>; या १, ७<sup>२</sup>कृ;  
 ६, १३९; ३१कृ; १२, १३; १४<sup>३</sup>;  
 ३६; आज्यो १, १०<sup>१</sup>; वेज्यो  
 ३२<sup>१</sup>; -ङ्गम् आश्री २, १०,  
 ३××; शांश्री; काश्री ५, १३,  
 १<sup>२</sup>; माश्री १, २, ५, १२<sup>६</sup>; ८;

- a) भावे ङङ् प्र. उंसं. (पा ३, ३, १०४) । b) कर्तरि वनिप् प्र. । c) पामे. पृ १८३७ m द्र. ।  
 d) रसैर्भक्ष्यैः इत्यस्य स्थाने सपा. हिध २, २, १५ शक्तिविषयेण इति पामे. । e) = ऋषि-विशेष- । f) वैप १ द्र. ।  
 g) = योनि- इति पागम. । h) पामे. वैप १, २३१३ ० द्र. । i) भागः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आन.,  
 सपा. ऋ ५, ५१, ११ च) । j) पामे. वैप १, २३१४ e द्र. । k) पामे. वैप १, २०२९ h द्र. । l) पामे.  
 वैप १, २३१४ a द्र. । m) पामे. वैप १, २३१४ c द्र. । n) = पूर्वफल्युनी-देवता- । o) = घन- । p) = अदिति-  
 पुत्र- । q) = सुहृत्-विशेष- । r) पामे. वैप २, ३खं. भगम् माश्री ११, ४, ३, १५ टि. द्र. । s) पामे. वैप २,  
 ३खं. घनम् तैवा ३, ३, ११, २ टि. द्र. । t) = द्वादशादित्याऽन्यतम- ।

ऋञ्च २,७,४१<sup>०</sup>; या ३,१६;६,  
१३; १२,१४<sup>३</sup>; -गया गोष्ट  
१,३,१८; -ङ्गस्य आपश्चौ ६,  
२२,१; ८, १८, ४; भाश्चौ; या  
२,१३;९,३१<sup>६</sup>; -ङ्गाय आश्चौ  
४,५,७; शांश्चौ ५,८,५; आपश्चौ  
११,१,१२; १८, १०, १४<sup>०</sup>××;  
वौश्चौ ५,१६: २१××; १२,५:  
२०<sup>०</sup>; हिश्चौ १३,४,५<sup>०</sup>; द्राश्चौ;  
वैष्ट ३, २०: ६<sup>०</sup>; -गे आपश्चौ  
१६,३०,१; वौश्चौ ७, ५: २२;  
१४,४: ३८<sup>०</sup>; माश्चौ २, ३, ३,  
७; वैश्चौ १८, २: ४६; हिश्चौ  
११,८,४; आञ्चौ ३,५<sup>०</sup>; -गेन  
वौश्चौ ५, १७: ३<sup>०</sup>; वैश्चौ ९,  
११: ११<sup>०</sup>; आपर्म; या ४, ९;  
आञ्चौ ३, ६<sup>०</sup>.

भगी- पा ४,१,४५.

१भाग- -ग: वाश्चौ ३, ३, १,  
३५<sup>०</sup>; ऋञ्च २, ७, ३८; वृदे ५,  
१६७; -गस्य वृदे ३, ४५;  
-गानि या ७,२३.

भागी- गी ऋञ्च २, १,  
२४; वृदे ३, ९८; साञ्च  
१,४३५.

१भाग्य- -ग्यम् वौश्चौ १७,  
३९: १२; -ग्ये वौश्चौ १७, ३९:  
१२; विध ७८, १६.

भाग्य-महा-भा(ग>)गा<sup>०</sup>-  
-गे अशां २,४.

२भाग्य<sup>१</sup>->३भाग्य<sup>१</sup>- -ग्य:

वौश्चौ १७,३९: १३.

भग-काम,मा- -म: माश्चौ ५, १५,  
११; -मा: काश्चौ ५, १०, १५;  
-मायै वौश्चौ ५, १७: ३; २१,  
६: ३.

भग-देवता->ल्य,त्या- -त्यम्  
अञ्च ६, १२९; -त्या: शुञ्च ४,  
२३; अञ्च ३, १६.

भग-दैवत- -त: वृदे ५, १६९.

भग-नक्षत्र- -त्राणि काष्ट १९,७.

भग-दर<sup>६</sup>- पाग २,४,३१<sup>१</sup>; पावा  
३,२,४१<sup>०</sup>.

भग-पति- -ति: काश्चौ ५, १३, ११<sup>०</sup>.

भग-प्रमथन<sup>०</sup>- -नाय अप ३६, ९,  
१०<sup>०</sup>.

भग-भक्त- -क्त: शंघ ३७७: ३<sup>०</sup>५;  
-क्तस्य वृदे ३,९८<sup>०</sup>.

भग-वत्- -व: काश्चौ ६, ८, १;  
वौश्चौ; -वत: अप ३, १, १२;

४०, ३, १; पावा ८, ४, ६८;

-वते वौष्ट २,८,३५<sup>०</sup>; शैशि  
४; -वन् आमिष्ट ३, १२,

१: १९<sup>०</sup>; ङ्गाय<sup>१</sup> १, १९, ४;

२, १४, ३१; अप; -ङ्गवन्त:

काश्चौ २५,१, १८; आपश्चौ; या

११,४४; -वन्तम् वौश्चौ १७,

४५: ३; आमिष्ट; -वन्ति अशां

६, ७; -वान् वाधुश्चौ ३, ९४:

९; आपर्म १, १४, ५; शांष्ट ३,

७, ३<sup>०</sup>; आमिष्ट.

भगवती- -ङ्गंति काश्चौ

२५,१, १८<sup>०</sup>; वौश्चौ १८, ४४:  
१४; १८; माष्ट २, १४, ३०;  
-ङ्गवती आश्चौ<sup>१</sup> ३, ११, ४;  
४, ७, ४; काश्चौ २६, ६, २४;  
आपश्चौ; हिश्चौ १५,२,३<sup>०</sup>; काष्ट  
२४,१९<sup>०</sup>; अप्राय २,४<sup>०</sup>; -तीम्  
अप ४,३,४; -त्य: -त्या गो  
२,१०<sup>०</sup>.

भागव(त>)ती->ती-

भागवत- पा, पाग २, ४, ११.

भगवत्-तम- -ङ्गम: वौश्चौ ३,  
१४: १; पाष्ट ३,२,७.

भगवत्-तर- -र: शांष्ट ३, ७,  
३<sup>०</sup>.

भगवत्-पाद्-मध्य- -ध्ये विध  
९८,२.

भग-वायु- -यू साञ्च २,४३३.

भग-संयुक्त- -क्तम् भाष्ट १, १२:  
११.

भगा(ग-आ)दि- -दीन् अञ्च ३,  
२०.

भगा(ग-अ)न्तर- -रम् वृदे ७, ४६.

भगा(ग-अ)स्त्यि<sup>०</sup>- -स्थि विध ९६,  
६८.

भगा(ग-आ)स्य<sup>०</sup>- -स्य: विध ४५,  
२४<sup>०</sup>.

भगिन्- -गिन: वैश्चौ १,१७: १३;

-गिने शांश्चौ २,४,६<sup>०</sup>; आपश्चौ

५,२३,६; भाश्चौ ५, १५, ११;

माश्चौ १,५, ६, १९; वाश्चौ १,  
४,४, ४२; वैश्चौ १, १७: १०;

a) भा इति पाठः? यनि. शोधः (तु. ऋ ७, ४१, १) । b) सप्र. भगाय<>भागः इति पाठे. ।

c) = पूर्वफल्गुनी-देवता- । d) भागे इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सप्र. तै ३,१,८,२) । e) = मुहूर्त-विशेष- ।

f) सास्यदेवतीयः षण् प्र. । g) सास्यदेवतीयप् षण् प्र. उस्. (पा ४,२,३०) । h) ऋञ्च.>वस. । i) गावे

प्यञ् प्र. । j) = भाग्यवत्- । k) = रोग-विशेष- । l) तु. पागम. । m) तु. पाका. । n) पाठे. वैप २,

३खं. भगपतिः माश ११, ४,३,१५ टि. द्र. । o) = देव-विशेष- । p) पूष. = योनि- । q) सप्र. भगभक्तः

<> भगास्यः इति पाठे. । r) पाठे. वैप १,२३१५ । द्र. । s) पाठे. वैप १ श्रेष्ठतमः तै १,५,१०,२ टि. द्र. ।

t) पाठे. वैप १,२३१६ द्र. । u) पाठे. वैप १, २३१६ ० द्र. । v) वस. ।

हिथ्रौ ३, ५, २२<sup>३</sup>; -गी आथ्रौ  
२, ८, २; आथ्रौ ५, २, ९; २३,  
६; माथ्रौ ५, १, १३; वाथ्रौ १,  
४, ४, ४२; हिथ्रौ ३, २, १२;  
५, २२.  
भगो(ग-उ)त्तर- राणि शुप्रा २,  
२१.  
ङ्भग्य<sup>३</sup>- न्यः आमिष्ट १, ३, १ :  
१४; -न्ये आमिष्ट १, ३, १ :  
१३.  
भग-काम- प्रसृ. भग-द्र.  
भगल, ला- पाठमो २, ३, १९; पाग  
४, १, १६<sup>b</sup>; २, ८०<sup>c</sup>.  
भागलक- पा ४, २, ८०.  
भागलि- पा ४, १, १६; -लि:  
वैताथ्रौ १, ३; २२, १; २८, १२;  
कौसू १७, २७; अथ ६, ५२.  
भग-वत्- प्रसृ. भग-द्र.  
भगाल<sup>d</sup>- पाठमो २, ३, १०३; पा ६,  
२, २९; -लम् पाठ २, ७, १२;  
गौध ९, २२; पा ६, २, १३७.  
भगिनी<sup>e</sup>- नी आमिष्ट १, ७, १ : १२;  
काष्ट २३, २; शंघ ४३; वौध २,  
२, ६४; विध ३२, ७; वैध २,  
११, २; -नीम् वौष्ट ३, ३,  
२१; सुधप ८७ : ५; -नीष्ट  
आपध १, १४, ९<sup>f</sup>; -न्यः सुधप  
८५ : ३; -न्यै वा ३, ६; -न्यौ  
सु २, १.

भागिनिय- न्यः सुधप ८५ : ३.  
भागिनियी- न्यी वौध २,  
२, ६४.  
भगिनी-भर्तृ-पाग ६, २, ८१.  
भगिनी-वत् वौधौप्र ५४ : ६.  
भगिनी-शुल्क- ल्कम् गौध २८,  
२६.  
भगिनी-सपत्नी- न्यः सुधप ८५ :  
३.  
भग्न- ✓भञ्ज द्र.  
भ-ग्रह- प्रसृ. ✓भा द्र.  
भङ्ग, ङ्गा(वप्रा.)<sup>g</sup>- पाग ४, १, ४१<sup>b</sup>; ५,  
१, २९<sup>f</sup>; ६६; -ङ्गः<sup>h</sup> अप ७०<sup>i</sup>,  
१४, २; ७१, १५, ९; ७२, ३, १०;  
-ङ्गम् वौथ्रौ १८, ३६ : ६<sup>k</sup>; -ङ्गे  
अप २३, ११, २<sup>l</sup>; -ङ्गेन वौथ्रौ  
१८, ३६ : ७<sup>m</sup>.  
भङ्गी- पा ४, १, ४१.  
भाङ्ग<sup>n</sup>- ङ्गानि कौसू १६, १६;  
-ङ्गे कौसू ४७, २९.  
भाङ्ग-(ज्या>)ज्य<sup>o</sup>- ज्येन  
कौसू ३५, २८.  
भाङ्ग-सौङ्ग- -ङ्गान् कौसू  
१४, २८.  
भाङ्गिक- पा ५, १, ३९.  
भाङ्गीन- पा ५, २, ४.  
भङ्ग-क्रय्याद-सेवन<sup>p</sup>- नम् अप  
६४, ६, ८.  
भङ्गा-कट- पावा ५, २, २९.

भङ्गिन्-> भङ्गि-त्व- -त्वात् मीसू  
४, ४, ११.  
भङ्ग्य- पा ५, १, ६६; २, ४;  
-ङ्ग्येन<sup>q</sup> आपथ्रौ १२, ११,  
१०; हिथ्रौ ८, ३, ३१.  
भङ्गा, ङ्ग्य<sup>r</sup>श्रवस्- -ङ्गं वः<sup>s</sup> आपथ्रौ  
१६, ६, ४<sup>t</sup>; माथ्रौ ६, १, २, २६<sup>u</sup>;  
वाथ्रौ २, १, १, ५०<sup>v</sup>; हिथ्रौ ११,  
१, ६९<sup>w</sup>; -वसः चाथ ३८ : १५.  
भङ्गुर- ✓भञ्ज द्र.  
ङ्भङ्ग्यश्विन<sup>x</sup>- नौ आपथ्रौ २१,  
२०, ३; हिथ्रौ १६, ६, ४१.  
भञ्जुण्ड<sup>y</sup>- ण्डान् शंघ २२०.  
✓भञ्ज (वधा.)<sup>z</sup> पावा. भ्ना. उभ.  
सेवायाम्; चुरा. उभ. विशाणने,  
भजते निसू ९, ८ : २०; ऋथ  
३, ३७; वृदे १, ५; ७८××; या  
७, १८; २०; ३१; याशि १, ७३;  
भजति अप ४८, ५५<sup>aa</sup>; वाघ  
१, ४४<sup>ab</sup>; वृदे ३, १४; भजेते वृदे  
१, ११३; या ७, १८; २०; ३१<sup>ac</sup>;  
ऋप्रा १८, ३४; भजन्ते शांथ्रौ  
१३, १२, १३<sup>ad</sup>; वौथ्रौ २४, ३ :  
६; वाथ्रौ ३, २, २, ४२<sup>ae</sup>; निसू  
५, ६ : २; ८, ५ : ३०<sup>af</sup>; आमिष्ट  
३, १, १ : ११<sup>ag</sup>; माष्ट २, ११ :  
११<sup>ah</sup>; हिष्ट २, १०, ६<sup>ai</sup>; अप;  
भजन्ति शंघ २७३; वृदे २,  
७३; ७४; ङ्भजामहे हिथ्रौ १२,

a) सत्यदेवतीयः यत् प्र. उसं. (पा ४, २, ३१)। b) व्यप.। c) भलग- इति [पक्षे] भाण्डा.,  
पासि.। d) =कपाल-। e) नाप. (त्वस-)। व्यु. ?। <(✓भञ्ज [वधा.]>) भग- (कल्याण-, यत्न-)  
इति प्रायोवादः ?। (✓भञ्ज [संबन्धे.]>) \*अ (आ) गि (न्>) नी-> यनि. (तु. रञ्जु-, ✓लम्)  
इति मतम्। f) सपा. आतृष्ट भगिनीषु<>आतृष्टभगिनीषु इति पामे.। g) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र.।  
h) तु. पागम.। i) भङ्गा- इति पागम.। j) =नाश-। k) =मादक-नील्व्-। l) पामे. वैप १, २३१६ Ω  
द्र.। m) विकारार्थे ञ्ण् प्र.। n) वस.। o) द्रस.>पस.। p) स्तार्थे प्र. (वैतु. हिथ्रौ. भाष्यम् तस्मै-  
हित्यः प्र. इति)। q) आपथ्रौ. हिथ्रौ. पाठः। r) वैप १ द्र.। s) पामे. वैप १, २३१६ I द्र.। t) =फल-  
विशेष-। u) या १, ७; ३, १६ पा ३, २, ६२ पावा ६, ४, १२० परामृष्टः द्र.। v) घा. प्रेप्सायां वृत्तिः। w) पामे-  
वैप १, १५४० d द्र.। x) उत...भजन्ते>सपा. शौ १८, ४, ४० उय...सुचन्ते। तु. वैप १ इति पामे.।  
वैप-तृ-४९

६,६; गोष्ठ ४,५,३; जैष्ठ १, १ : १७; भजन्त शैशि ६२१; ऋभजताम् आपश्चौ ४, ११, १; माश्रौ; भजन्तु अप १, २६, २१; भजस्व अप २०, ६, १; वृदे ७, ६५; भजतम् अशां ८, ४; ऋभजध्वम् आपश्चौ २१, १२, ३; हिश्रौ १६, ४, ३५; जैष्ठ २, १ : २९; भमजन् वृदे ७, १४३; भजेत वैगृ ६, ७ : १३; आपघ १, २०, ८; २, २९, १४; हिघ १, ६, २२; भजेत् अप ६८, २, २३; विघ १८, ४३; वैघ ३, १३, ७; भजेरन् लाश्रौ ७, ५, २१; विघ १७, २२; गौघ २१, १६; २८, १; २१; ४२; भजेमहि शाश्रौ १२, २४, ६१. ऋभक्षि आपमं १, १४, २; या १२, १४. भजे निस् २, ९ : ७; भेजिरे अप १, ८, २; ५; ८; ९; १०; आपघ २, २३, ४; हिघ २, ५, १५८; १५९; भक्षत या ६, ८१; भक्षीष्ट शाश्रौ १५, २६, ११; ऋभक्षीय शाश्रौ २, ११, ६५; आपश्रौ; ऋभक्षीमहि वागृ ५, १५; अप १, २६, ५; या ४, ७; भमक्त माश्रौ ३, २, २१<sup>०</sup>; ऋभक्त आपश्रौ ४, ११, १; माश्रौ. भाजय आमिष्ट १, ५, १ : ९१; ऋभाजयत् जैश्रौ १२ : ४; आपमं २, ७, १४; भाजयेत् गौघ १०, २२.

अविभाजयिषीत् निस् ६, ८ : २५<sup>१</sup><sup>b</sup>. १भक्त<sup>c</sup>-क्तम् आश्रौ २, १, ४; वौश्रौ; -क्तस्य वाश्रौ १, ५, ३, ११; कौस् ४७, १७; -क्तानि गोष्ठ ४, ५, १०; द्रागृ ४, १, १; -क्त कौस् २८, ९; ३६, ३३; ४७, २३; अप ७०<sup>३</sup>, ७, १३<sup>१</sup>; -क्तेन आपश्रौ ६, १९, ११; गोष्ठ १, ९, ५; कौस् ५४, २२; ६८, ४०; १३६, १२; १४०, २१; अप ७२, ४, ७; अशां १२, ६. भाक्त- पा ४, ४, ६८; १००. भाक्तिक- पा ४, ४, ६८; -काः आपघ २, ९, १०<sup>d</sup>. भक्त-पात्र- त्रे अप ७०, ५, ३. भक्त-यातन- नात् कौस् २१, ५. भक्त-शरण<sup>e</sup>- णम् आगृ २, ७, ८. भक्ता(क्त-आख्या >)स्व<sup>f</sup>- स्व्याः पा ६, २, ७१. भक्ता(क्त-अ)पचय- येन आपघ १, २५, ८; हिघ १, ७, ४. २भक्त, क्त<sup>g</sup>- क्तानाम् अप १९, ८, ८; २०, ५, ४; अशां २, २; ३, १; ४, २; -क्तम् वृदे ४, २५. भक्त-बल<sup>h</sup>- लः शंघ २४४. भक्त-वत्सल, ला- -ल विघ १, ५७; -ला शंघ ४४१. भक्ति(वप्रा.)<sup>b</sup>- पाग ४, २, ९५; ६, ३, ३३; -क्तयः लाश्रौ १०, ९, १०; निस् ६, ७; ६५; -क्तिः निस् ३,

५; ६; ७, १ : ८; ८, १० : ४१<sup>१</sup>; वृदे १, ७३; कौशि ७८; ऋप्रा १७, १३; पा ४, ३, ९५; मौस् ३, ८, ४३; -क्तिम् द्राश्रौ ३, ४, १२; -क्ती निस् १०, १० : १७; -क्तीः वृदे १, ७६; -क्त्या वौश्रौ २६, १४ : ९; १३; वैगृ ४, १२ : १३; अप १, ७, ८५५; ऋप्रा १, १६; २, ६; शंघ ३७५५; विघ ८६, १५; वैघ २, ४, ५; वृदे १, ६; ऋप्रा १७, ६; १८, ५९; मौस् ४, ४, २८; ६, १, १९५५. भाक्तेयक- पा ४, २, ९५. भक्ति-कर- पा ३, २, २१. भक्ति-तन्त्र- -न्त्रयोः निस् ७, ६ : ८. भक्ति-तस् (: ) वृदे ५, १७२; ऋप्रा १८, ६२. भक्ति-ता- ता भाशि ४. भक्ति-त्व- त्वात् मौस् ६, ५, ३४; ७, ३, १४. भक्ति<sup>i</sup>, क्ती<sup>j</sup>-द्यावापृथिवी- >व्य<sup>k</sup>- व्यम्<sup>l</sup> आपश्रौ ९, १९, ६; वैश्रौ २०, ३७ : ११; -व्येन आपश्रौ ९, १९, ७. भक्तीद्यावापृथिवीय<sup>k</sup>- यम्. हिश्रौ १५, ८, १९<sup>१</sup>. भक्ति-पान<sup>m</sup>-त्व- त्वात् मौस् ३, २, ४३. भक्ति-पूर्वक<sup>n</sup>- -क्तम् अप ६९, ९, ३. भक्ति-मात्र- -त्रम् या ८, २; २२; -त्रेण निस् ४, १३ : ७.

a) पाभे. वैप २, ३४. अस्क्त तत्रा १, ४, ३, ३ टि. द्र. । b) अविभा<sup>०</sup> इति पाठः ? यनि. शोधः । c) =अञ- । वैप १ द्र. । d) सपा. हिघ २, १, १२५ भृत्याः इति पाभे. । e) नाप. (महानस-). । f) वत्. । g) =सेवक- । h) =विभाग-, सामभक्ति- (लाश्रौ. प्रमृ.), लक्षणावृत्ति- (मौस्.), धर्म- (वृदे. या.), सेवा- (वैगृ. प्रमृ.), स्वरभक्ति- (कौशि.) प्रमृ. । i) वैश्रौ. पाठः । j) ईद् आदेशः उंसं. (पा ६, ३, २७) । k) पूष. अर्थः ? । यक. यत्, छः प्र. उंसं. (पा ४, २, ३२) । l) परस्परं पाभे. । m) वृत्. ।

भक्ति-लोप-दर्शन- -नात् लाश्रौ  
६, १, १४.  
†भक्ति-वस्<sup>a</sup>- -वानः<sup>b</sup> आपश्रौ  
४, १३, ७; भाश्रौ ४, १९, ७.  
भक्ति-शेष- -षः अप ४८, १४७;  
-षम् या ७, ११.  
भक्ति-साहचर्य- -र्यम् या ७, ८.  
भक्त्य(क्ति-अ)नुक्रम- -मात्  
मीसू १०, ८, ३१.  
भक्त्य(क्ति-अ)न्तर- -राणि द्राश्रौ  
३, ४, ७.

भजन- -नम् अप १, ३८, ४.

भजनीय- -यम् या ४, १०.

भजमान, ना- -नाः विद्य १७, २२;

-नासु वौश्रौ २२, ६ : १३.

भ-भाग<sup>a</sup>- पाग ५, १, ६६; -गः

†आश्रौ १, १३, ४; ४, ७, ४; ९,

११, १९; शांश्रौ; सु २८, २;

कौश्र ५, ३, २५†; †आमिगृ<sup>०</sup> ३,

६, १ : ९; ७, ४; १३; †वौषि १,

८ : ८; २, ४, १०; हिपि ७ :

७†; काश्रु ६, ९; वौश्रु १ :

३४; ३ : २८; हिश्रु ३, ३२;

वृदे ३, ८९; शुअ १, १४७†;

-†गम् आश्रौ १, ७, ८†xx;

शांश्रौ; काश्रौ ३, ४, २५; आपश्रौ

४, ११, १०; भाश्रौ ४, १६, २०;

माश्रौ १, १, १, १९†; ३, ३४†; ७,

१, ८†; १२†; वाश्रौ १, २, १,

७†; २, ३२†; हिश्रौ १, ३,

५२†; ६, ३, ३०; वैताश्रौ १०,

१५†; कौश्रु ६४, ७†; या ३, १२;

४, २६†; कौशि ६; शुप्रा २,

४३; -गयोः वौश्रु ३ : ८; ११;

१९ : १०; -गस्य काश्रौ १०,

२, २†; आपश्रौ १३, ४, १४†;

वौश्रौ; -गाः निसू ३, ५ :

२२xx; आमिगृ; या ८,

२२†; -गात् दंवि २, १;

-गान् शांश्रौ ३, १६, २६;

१७, १३, ६; काश्रौ; -गानाम्

निसू ३, ६ : २; ९ : २४; -गे

आपश्रौ १८, ४, १५†; वौश्रौ; पा

५, ३, ४८; -गेन आपश्रौ १४,

५, १०; १५, ९, १२†; वौश्रौ;

-गेषु निसू ३, ५ : ३; ११;

९, ८ : ३१; -गैः वौश्रु १९ : २;

-गौ वौश्रौ २, १२ : २५; ६, २६ :

९; माश्रौ १, ३, ३, २३; ७, १,

९; वैश्रौ १०, १९ : ५; शंघ

२६८; २६९; २९१; वौश्रु ५ :

८; ७ : १७; १८; याशि २, ११०.

भाग-कर्मन्- -र्मणी पा ४, ४,

१२०.

भाग-वृत्तीया(य-आ)या(म>)

मा- -माः वौश्रु १९ : ६.

भाग-दुघ<sup>a</sup>- -घम् आपश्रौ १८,

१९, ६; वौश्रौ १२, १५ : ८;

वाश्रौ ३, ३, १, ३७; हिश्रौ १३,

६, ३१; -घस्य काश्रौ १५, ३,

११; वौश्रौ १२, ५ : २९; २६,

१ : १४†.

भाग-दुह- -धुक् वौश्रौ १२,

१५ : ९.

†भाग-घ<sup>a</sup>- -घान्<sup>t</sup> आपश्रौ १,

१०, ६; वौश्रौ; -घे तैप्रा ४, ११;

-घेन वौश्रौ १३, १० : ४.

‡भागधातिक<sup>1</sup>- -कम् वाश्रौ ३,

३, १, ३७†.

भाग-घेय<sup>a</sup>- पावा ५, ४, २५;

३६; -यम् आश्रौ ८, १४,

४††; †आपश्रौ १, २१, २;

२, २०, ६; ५, ८, ७; ११, ५, ३;

१४, ३२, ५; २४, १३, ३; वौश्रौ;

मागृ २, ३२ : १९††; मागृ १,

११, ६††; वागृ १४, २††;

या १४, ३०; -घस्य या ९, ३१;

-†यात् आपश्रौ ६, ८, ११;

जैश्रौ १९ : ६; -यानि आश्रौ

७, ९, २; ८, २, १३; शांश्रौ १२,

११, १७; -याय वाधुश्रौ ४,

१०३ : १४; -†ये वौश्रौ १३,

१९ : ११; भाशि ९५; -येन

वौश्रौ १३, १९ : १३; १४, १९ :

१८.

भागघेयो- पा ४, १, ३०;

-†यीः<sup>m</sup> आपश्रौ ११, २१, ३-५;

वौश्रौ ६, ३३ : ६; ८; ११; माश्रौ

१, ७, ३, ३०; २, २, ५, ३४†;

वाधुश्रौ ४, ७० : १०; ११†; वाश्रौ

१, ६, १, ३२; वैश्रौ १४, १९ : ५;

८; २० : २; हिश्रौ ७, ८, ६३;

६५; १५, ५, ४.

भाग-परिहरणा(ण-आ)दि- -दि

काश्रौ २, २, ३.

भाग-पर्वन्- -र्वणि निसू ३, ७ :

१७.

भाग-लाभिन्<sup>०</sup>- -भी वौश्रौ

२६, १ : १५†.

a) वैप १ द्र. 1 b) पामे. वैप १, २३१७ u द्र. 1 c) पामे. वैप १, २३१८ ० द्र. 1 d) = देवता-विशेष-1

e) पामे. वैप २, ३३६ भागम् तैत्रा ३, ७, ५, ९ टि. द्र. 1 f) पामे. वैप १, १६२३ b द्र. 1 g) पामे. वैप १, १५४१

i द्र. 1 h) वृ. चौसं. 1 i) पामे. वैप १, २३१९ e द्र. 1 j) 'व्दा' इति शोधः । 'व्दत्' -> दात् - (प्रदान-) >

(त्कारकेऽर्थे) दातिक- इति द्र. 1 k) सप्र. भागधातिकम् <> भागलाभी इति पामे. 1 l) पामे. वैप १, २३१८ k द्र. 1

m) पामे. वैप १ वाजम् तै ३, ५, ६, १ टि. द्र. 1 n) पामे. वैप १, २३१८ e द्र. 1 o) = भागलाभ-प्रयोजक-1

भाग-विपर्यय- -यः निस् ८,  
 ५: १९; -यात् निस् ८, ५: २२.  
 भाग-विलोप- -पे निस् ६, १०:  
 ११; ८, ४: ४.  
 भाग-विशेष- -यः गौघर ८, १७.  
 भाग-शस् (: ) कौसू १३५, ९१;  
 अप्राय २, ६; अप ३३, ३, ६;  
 आज्यो ९, ३.  
 भाग-संतान- -नाय निस् ८,  
 ४: ४.  
 भाग-समाप्ति- -सौ निस् ९,  
 १०: १९.  
 भाग-सामान्त<sup>०</sup>- -न्ता: निस्  
 १, १२: १.  
 भाग-स्तोम<sup>०</sup>- -मा: निस् १,  
 १०: ८; -मान् निस् ७, ७: ११;  
 ८, १०: १२; १०, ४: ६;  
 -मानाम् निस् १०, ५: ८; १६.  
 भाग-हारिन्- -रिणः विध १५,  
 ३४.  
 भागा(ग-अ)गम<sup>०</sup>- -मेन निस्  
 ९, ७: १६.  
 भागा(ग-अ)त्मन्- -त्मना वेज्यो  
 १२.  
 भागा(ग-अ)न्त- -न्ते निस् ३,  
 ९: २१.  
 भागा(ग-अ)न्वित- -तम् निस्  
 ८, ६: १४; ९, १: ५५; -तानि  
 निस् ४, १२: १४; ८, ५: २३;  
 ६: ३८.  
 भागा(ग-अ)पहारि(न् >)णी-  
 -ण्यः विध १८, ३४.  
 भागा(ग-अ)र्थ- -र्थम् कौसू ३,

१०, ३५; शांठ २, १६, ६.  
 भागा(ग-अ)र्थ-व्यास- -सम्  
 वौशु १९: २.  
 भागा(ग-अ)र्ह- -र्हम् गौघ  
 २८, ४५.  
 भागा(ग<sup>d</sup>-अ)वगाढ-विस्तार<sup>०</sup>-  
 -रम् वैगृ ५, ३: ११.  
 भागिक- पा ५, १, ४९.  
 भागिन्- -गिनः वौश्रौ २९, ३:  
 १०; आपघ २, ९, ५; १४, १४;  
 २९, १; हिघ २, १, १२०; ३,  
 २५; ६, १४; -ङ्गिणम् आपश्रौ  
 ६, ८, ११<sup>१</sup>; वौश्रौ १४, ३: १०;  
 आपमं २, ६, १२<sup>३</sup>; -गिनाम्  
 वौश्रौ ३, ६: १४<sup>१</sup>; -ङ्गी  
 आपश्रौ ४, ११, १; भाश्रौ ४,  
 १६, २; हिश्रौ ६, ३, ३; विघ  
 ९०, २६.  
 भागिनी- -नीम् आपश्रौ  
 ९, १५, २३; वौश्रौ २७, १: ७;  
 ९; २९, ४: १; ३; भाश्रौ ९,  
 १८, १२; माश्रौ ३, १, ३; वैश्रौ  
 २०, २५: २; हिश्रौ १५, ४, ४३;  
 अप्राय ४, १; -न्यै वैश्रौ २१,  
 ३: ६.  
 भागिनी-देवता-  
 -तानाम् वैश्रौ २०, २५: १.  
 भागि-त्व- -त्वम् मीसू १,  
 ३, २५; -त्वात् मीसू ४, ४, ३४;  
 ७, २, ३; ४, ७; १०, २, ५९; ३,  
 ४७.  
 भागो(ग<sup>d</sup>-उ)न्नत- -तम् वैगृ ५,  
 १३: १२.

४भाग्य- पा ५, १, ४९; ६६.  
 २भागिन्- पा ३, २, १४२.  
 भाज्- भाक् वृदे १, १००.  
 भाज- > भाजी<sup>०</sup>- पा ४, १, ४२-  
 १भाजन<sup>१</sup>- -नम् शांठ २, १२,  
 १५<sup>१</sup>; विघ ९०, १५; -नानि वौघ<sup>१</sup>  
 ३, २, ८; -ने अप ३०<sup>३</sup>, २, ५;  
 ६८, २, ३; शंघ २२६.  
 भाजन-वत्- -वत् या ४, १०;  
 -वति या ११, १९.  
 भाजनवती- -ती या १२,  
 १७.  
 √भञ्ज<sup>०</sup> पाधा. र्धा. पर. आमर्दने;  
 चुरा. उभ. भापायाम्, लभाङ्क्षीः-  
 सु १४, ५.  
 भज्यते अप ७१, १६, ४;  
 भज्यन्ते अप ५५, ६, २; ६४, ७,  
 ६; भज्येत हिश्रौ १५, ८, ३५;  
 कौसू ५७, ७.  
 अभाजि, लभज्जि पा ६, ४, ३३.  
 भग्न- -न्ते वौश्रौ २७, २: १२;  
 अप २३, ४, १; ७२, २, ६; वौघ-  
 १, ४, ६.  
 भग्न-नष्ट-दुष्ट-विपरीत-स्फु-  
 टित- -तेषु वौगृ ४, ८, १<sup>१</sup>.  
 भग्न-पृष्ठ-शिरो-ग्रीव<sup>m</sup>- -याः  
 विघ ४३, ४४.  
 भग्न-प्राकार-वोरण<sup>m</sup>- -णम् अप  
 ७०<sup>३</sup>, २३, ८.  
 भग्न-स्फुटित-वृक्ष- -क्षाणाम्  
 अप ७०, ४, ७.  
 भगना(ग-अ)क्ष<sup>m</sup>- -क्षः अप ७२-  
 २, ८.

a) कस. । b) =स्तोम-विशेष- । c) पूष. = भागसामान्त- ? । d) =चतुरहुल-प्रमाण- ।  
 e) वस. > दस. । वा. क्वि. । f) सपा. °नम् <> °नाम् इति पाभे. । g) पाभे. वैप १, २३१६ d द. ।  
 h) =पञ्च-व्यञ्जन- । घा. पाके वृत्तिः । i) =पात्र- । घा. धारणे वृत्तिः । j) सपा. कौठ २, ७, २७ भाज्य-  
 भाजनम् इति पाभे. । k) पा ७, ४, ८६ परामृष्टः द. । l) पृ १०९ p. द. । m) वस. > दस. । n) वस.  
 सप. = २अक्ष- ।

भग्ना(भ-आशा >)श<sup>३</sup>- -शः  
 विघ ६७,३३.  
 भङ्गुर- पा ३,२,१६१.  
 ङ्भङ्गुर(र >)रा-वत्<sup>३</sup>- -वतः  
 वीश्रौ ३, ९: १००; भाश्रौ ६,  
 ३, ३०; वीश्रु १,४, ११०; ऋप्रा  
 ९, ११; तैप्रा ३, ५०; -वताम्  
 शुप्रा ३,९७०.  
 भञ्जन- पाग ६,३,११६.  
 भञ्ज(न >)ना-गिरि- पा ६,३,  
 ११६; ऋत ७,७,१०.  
 भञ्जना(न-आ)दि- -दौ अप  
 ३६,३०;२.  
 √भद् पावा. भ्वा. पर. मृतौ परि-  
 भाषणे च.  
 भटिल- पाठना १,५३.  
 भट्ट- (>भट्टी- पा.) पाग ४, १,  
 ४१.  
 भडित<sup>१</sup>- पा, पाग २, ४, ६३; पाग  
 ४,१,१०५;११०;२,१११.  
 भाडितायन- पा ४,१,११०; -नः  
 द्राश्रौ १०,१,१०.  
 भाडित्य- पा ४,१,१०५.  
 भाडित- पा ४,२,१११.  
 भडिल<sup>१</sup>- पाठ १,५४; पा, पाग २,  
 ४,६३; पाग ४,१,११०.  
 भाडिलायन- पा ४,१,११०.  
 √भर्ण<sup>१</sup> पावा. भ्वा. पर. शब्दे, भणति  
 निघ ३,१४<sup>१</sup>.  
 भण्यते वृदे ३,५४.  
 भण->√भणाय<sup>६</sup>, भणायते निघ

३,१४<sup>१</sup>.  
 भणिति- पागम ४४५.  
 √भण्<sup>१</sup> पावा. चुरा. उभ. प्रतारणे.  
 √भण् पावा. भ्वा. आत्म. परिभा-  
 षणे; चुरा. उभ. कल्याणे.  
 १भण्ड- पाठभो २,२,११५.  
 २भण्ड<sup>१</sup>- -ण्डानि आपश्रौ ६,२८,२.  
 १भाण्ड<sup>१</sup>- पाठभो २, २, ११७<sup>६</sup>;  
 -ण्डम् वैश्रौ २, ११: ३; द्विश्रौ  
 ३, ८, ३; अप २३, १३, ३;  
 -ण्डात् पावा ३, १, २०;  
 -ण्डानाम् सुघव ८७: १६;  
 -ण्डानि वैश्रौ ११, १०: २;  
 वैश्रु ३, १६: २; शंघ १८३;  
 -ण्डे आपगृ ६, ४; वीघ २, १,  
 २१; विघ ६८,४९.  
 भाण्ड-लेप- -पः शंघ १४०.  
 भाण्डा(ण्ड-अ)गार-पति-  
 -तिम् अप ५,५,४.  
 भाण्डा(एड-अ)धिक<sup>३</sup>- -के अप  
 ७१,१७,४.  
 √भाण्डि पा ३,१,२०.  
 ३भण्ड<sup>१</sup>- (>२भाण्ड- पा.) पाग  
 ४,१,११२<sup>१</sup>.  
 भण्डिक<sup>१</sup>- (>भाण्डिकायन- पा.)  
 पाग ४,१,११०.  
 भण्डित<sup>१</sup>- पा, पाग २, ४, ६३; पाग  
 ४,१,१०५;११०;२,१११.  
 भाण्डितायन- पा ४,१,११०; -नः  
 लाश्रौ ३,९,१०; ६,६,१५.  
 भाण्डित्य- पा ४,१,१०५.

भाण्डित- पा ४,२,१११.  
 भण्डिल<sup>१</sup>- पाठ १,५४; पा, पाग २,  
 ४,६३; पाग ४,१,११०.  
 भाण्डिलायन- पा ४,१,११०.  
 भण्डु- (>भाण्डव- पा.) पाग ४,  
 २,७७.  
 √भद्, न्द् (वधा.)<sup>३</sup> पावा. भ्वा.  
 आत्म. कल्याणे सुखे च, ङ्भन्दते  
 अप ४८, ९<sup>१</sup>; निघ १,१६०; ३,  
 १४<sup>१</sup>; या ५,२.  
 भन्दन्त- पाठ ३,१३०.  
 भद्, द्वा<sup>३</sup>- पाठ २, २८; पाग १,  
 ४,७४<sup>१</sup>; ३,१,१२<sup>१</sup>; ४, १, ३५;  
 -ङ्द्रः आश्रौ ७, ८, १; शंश्रौ  
 १२, ११, १९; २४, ८<sup>१</sup>; काश्रौ;  
 -ङ्द्रम् आश्रौ १, ९, १; २, ७,  
 ९××; शंश्रौ; वीश्रौ १६, २२: १०<sup>६</sup>;  
 क्षुम् ३, २: ३५<sup>६</sup>; मागृ २, ८,  
 ६<sup>१</sup>; या १, १८; ४, ९; २, ५<sup>४</sup>;  
 १२, १३; -द्रम् ङ-द्रम् जैश्रौ  
 ११: ४; -ङ्द्रया<sup>३</sup> आपमं २, २,  
 १०<sup>३</sup>; वीश्रु २, ५, १४<sup>३</sup>; अप्रा;  
 -ङ्द्रस्य आश्रौ २, ८, १४;  
 शंश्रौ १२, २०, २; -ङ्द्रा आश्रौ  
 ३, १३, १४; ८, १३, १३; काश्रौ;  
 या ४, ९; १२, १७; ३९;  
 ङ्आज्यो<sup>१</sup> ६, ८; ९; -ङ्द्राः  
 आश्रौ ५, १८, ५; शंश्रौ; -द्राणि  
 ङ्आपमं १, १३, २; ३; कौश्रु १,  
 १२, ६<sup>१</sup>; शंघ १, १९, ६<sup>१</sup>; शंघ  
 २४५; -ङ्द्रात् आश्रौ २, ९,

a) वस. । b) वैप १ द्र. । c) पाभे. वैप १, २३२० j द्र. । d) व्यप. । e) सपा. ण्डिता<sup>१</sup>  
 <> ण्डिता<sup>१</sup> इति पाभे. । f) पावा ७, ४, ३ परामृष्टः द्र. । g) धा. गतौ वृत्तिः । h) तु. BEG. ।  
 ठे) = १भांजन- । j) स्वार्यिकः अण् प्र. (पा ५, ४, ३८) । k) <√भा । l) तु. पाका. । जम्म-  
 इति भाण्डा. प्रमृ. । m) या ५, २ परामृष्टः द्र. । n) धा. अर्वायां वृत्तिः । o) धा. ज्वलने वृत्तिः । p) विप.,  
 नाप. । वैप १ द्र. । q) डाजन्तं द्र. । r) तु. पागम. । s) = साम-भेद- । t) उत भद्रमस्तु इत्यस्य स्थाने  
 सप्र. आगृ २, ४, १४ अर्भयं विश्वमस्तु इति, पागृ ३, ३, ६ अकृन्तद्विधमस्तु इति च पाभे. (पृ १३ ० अयं विशेषः द्र.) ।  
 y) पाभे. वैप २, ३३. भद्रे मंत्रा १, ६, २८ टि. द्र. । v) = तिथि-विशेष- ।

१०; ४, ४, २; शांश्रौ; -तं द्रान्  
हिश्रौ ६, ३, २; आपमं १, ८, २;  
कौघ ३, ४, ३; शांघ ३, ५, ३;  
वौघ १, ५, ६; -द्राम् वांश्रौ  
१०, १९, २<sup>३</sup>; कप्र २, ५, ११;  
अप ४, ३, ४; आज्यो ६, १२<sup>०</sup>;  
-द्राय कौस् ५८, १<sup>२</sup>†; -द्रायाम्  
आज्यो ७, २<sup>०</sup>; -द्रायै कौस्  
३९, ९†; -तं द्रे वाश्रौ ३, २, ५,  
४३; आपमं २, १२, ९; या १२,  
१९; -तं द्रे काघ ४१, ११<sup>०</sup>;  
माघ १, २२, ७<sup>०</sup>; वाघ ५, ७<sup>०</sup>;  
जैघ १, १२ : ४८<sup>०</sup>; अप ४, ३,  
५५; -तं द्रेण आपश्रौ १८, ७, १;  
वौश्रौ १२, ११ : १; वाश्रौ ३,  
१, २, ३६; वैश्रौ १७, १७ : ३;  
हिश्रौ १३, २, ३०<sup>२</sup>; या ११, २४;  
शुप्रा ६, ३०; -तं द्रेभिः आश्रौ  
४, १४, २; शांश्रौ ६, ५, ४; -द्रोम्<sup>०</sup>  
हिपि १८ : ११.

भद्र-काली<sup>०</sup> -ली अप ७२,  
१७, ७; -लीम् काघ १९, ७;  
-ल्यै कौघ ३, १०, १४; शांघ  
२, १४, १४; वैघ ३, ७ : १८.

भद्रकाली-पूजन- > ण-  
चित्रकर्मा(र्षि-अ)ङ्गविद्या-तूर्यघो-  
पण-मर्दन-वृत्ति<sup>०</sup> -त्तिः वैघ  
३, १३, १६.

†भद्र-कृत्- -कृत् वैघ १, १८:९.

भद्र-करण- पावा ६, ३, ६९.

भद्र-क(र>)री- -०रि काघ

५४, ४; विघ ६७, ८.

भद्र-दास्(ण>)णा<sup>०</sup> - गघा  
अप १८, ३, १.

भद्र-प(ति>)ती- पाघ, १, २५

भद्र-प(द>)दा<sup>०</sup> - -०दे अशां  
५, ४.

भाद्रप(द>)द्री- >

भाद्रपद<sup>०</sup> - दे वाशि २, ६०.

भद्रपदो(दा-उ) त्त(र>)

रा<sup>०</sup> - राम्, -०रे अशां ५, ५.

भद्र-पीठ- ठे पाघ २, १५, ४;

काघ १७, १; जैघ १, ७ : ४.

भद्र-मावृ- > भाद्रमावृ- पा  
४, १, ११५.

भद्र-सुज<sup>०</sup> - > भाद्रमौज<sup>०</sup> -

-ज<sup>०</sup>मी कौस् ५६, १; ५७, १.

भद्र-सुस्त<sup>०</sup> - -स्तैः अप १, ४५, ८.

†भद्र-वाच्य<sup>०</sup> - -व्याय काश्रौ ३,

६, २; आपश्रौ ३, ६, ५; वौश्रौ १,

१९:२३; माश्रौ ३, ५, १६:माश्रौ

१, ३, ४, १२; वाश्रौ १, ३, ६, ७;

हिश्रौ २, ४, २०; शुप्रा २, ४०.

भद्र-वाह्य- -ह्यानि आज्यो ७,  
२१<sup>०</sup>.

भद्र-शर्मन्- (>भाद्रशर्मि-  
पा.) पाग ४, १, ९६.

†भद्र-शोचि<sup>०</sup> - -०चे आपमं २,  
११, २८; शुप्रा ४, ६५.

भद्र-श्रेयस्<sup>०</sup> - -यसी छुस् ३, २ :  
३४; -यसोः लाश्रौ ७, ७, १७.

भद्र-श्रेयः-स्वस्त्व<sup>०</sup> - -स्त्याः

कौस् १३७, २६.

भद्रा√कृ<sup>०</sup> पा १, ४, ७४; पावा  
५, ४, ६७.

भ(द>)द्रान्(त् >)ती<sup>०</sup> -

-०त्ति कौस् ३९, ९†.

भद्रा(द्र-अ)ह<sup>०</sup> - -हैम् अर १,  
१, १; २<sup>३</sup>; ३.

भन्द- > ण्दिष्ट- -तंष्टः शांश्रौ ७,  
१०, १३<sup>३</sup>; अफा ३, २, ३३.

भन्दत्- > ण्द्व-इष्टि<sup>०</sup> - -ष्टपः  
शांश्रौ ८, २३, १†.

भन्दन्- > णीय- -ये वा ११, १९.

†भन्दना<sup>०</sup> - -नाः निघ ४, २; वा  
५, २४<sup>०</sup>.

भन्दनान- -तंनः<sup>०</sup> आपश्रौ १४,  
११, ४; हिश्रौ १०, ६, ९.

भद्र- ✓मद्, न्द्र द्र

भद्रका<sup>०</sup> - -कान् अप ५०, २, ४.

भद्रण<sup>०</sup> - -णाः वौश्रौ २०:१.

✓भन् (बधा.), भन्ते अप ४८, ९;  
भनति अप ४८, ६; ९.

भन्<sup>२</sup> - -नः वा २, १४.

✓भन्द् ✓मद् द.

भन्द्यश्व<sup>०</sup> - > भान्द्यश्व- -श्वत्य वाश्र  
४२: ४.

भ-पर- १भ- द्र.

भ-प्रशस्ता- ✓भा द्र.

र-रभय- ✓भी द्र.

भयजात<sup>०</sup> - > भायजात्य- -त्यः निघ  
८, ४: २९.

भयमान-, भयानक- ✓भी द्र.

a) = प्रजापतितनू-विशेष- । b) = तिथि-विशेष- । c) पाभे. पृ १८४५ प ३. । d) सप्रणवो निर्देसः  
(भद्रम् [क १०, १४, १२]) । e) = देवी-विशेष- । f) द्रस. > वस. । g) पूजानात्रकर्मा इति रत्ना. ।  
h) = ओषधि-विशेष- । i) = नक्षत्र-विशेष- । j) = मास-विशेष- । k) = नक्षत्र- (उत्तर-भाद्रपदा-)  
कत. परप्रयोगः उत्सं. (पा २, २, ३१) । l) वृत्तविशेषयोः द्रस. । m) विकारे ळण प्र. । n) वैप १ द्र. ।  
o) ष्वा इति पाठः ? यनि. शोधः । p) (सामविशेषयोः) द्रस. । q) (मन्त्रप्रतीकानाम्) द्रस. (वृ. संस्कृतः  
दि.) । r) मुष्टने वृत्तिः । s) = देवी-विशेष- । t) पाभे. वैप १, २३२३ ण द्र. । u) पाभे. वैप १, २३२३ ण  
द्र. । v) = जनपद-विशेष- । w) व्यप. । x) नैप्र. <नभस्- > -भः ।



भ-युञ्- √भा द्र.  
 भय्य- प्रभृ. √भी द्र  
 भर<sup>१</sup>- पाग ५, २, ३६; -रः या ४, २४<sup>१</sup>; -रम् या २, १७; ३, ९; -राणाम् आश्रौ ७, २, १७<sup>१</sup>; -<sup>१</sup>रे<sup>१</sup> अप ४८, १०५; निघ २, १७; -<sup>१</sup>रेषु आपश्रौ १२, १९, १९; वौश्रौ १३, २० : ६; १८, १४ : ५; हिश्रौ २२, ३, १७; निस् ८, १ : २०; या ४, २४<sup>१</sup>; भरित- पा ५, २, ३६.  
 भरेषु-जा<sup>१</sup>- -जाम् वौश्रौ १८, ५ : ११  
 भरक- पाठभो २, २, ७.  
 भरट- (> °टिक- पा.) पाठ ४, १०४; पाग ४, ४, १६.  
 १, २भरण-, °भिरु-, °णी-, °णीय- √भरण्य √भृ द्र.  
 भरखड- पाठ १, १२९.  
 भरत्-, भरद्वसु-, भरद्वाज- प्रभृ. √भृ द्र.  
 भा, भा<sup>१</sup>रम<sup>१</sup>- (> भारमेय- पा.) पाग ४, १, १२३.  
 भरमाण- √भृ द्र.  
 भरित्र<sup>१</sup>- पाठना ४, १८१; -<sup>१</sup>त्रे अप ४८, ८१; निघ २, ४.  
 भरिभ्रत्-, भरिमन्- प्रभृ. √भृ द्र.  
 भरु- पाठ १, ७.  
 भरुज, जा- पाठभो २, २, ९२; पाग ४, १, ४५; ५, ३, १०८; -जा या

२, २<sup>०</sup>.  
 भरुजी- पा ४, १, ४५.  
 भारुजिक- पा ५, ३, १०८.  
 भरुण्ड<sup>१</sup>->भारुण्ड<sup>१</sup>- ण्डानि वाध २८, १२; शंघ १०५; विघ ५६, १३.  
 भारुण्डेय<sup>१</sup>- -याः वौश्रौप्र १७ : ७.  
 १, २भर्ग-, भर्गस्- √भृज् (दीप्तौ) द्र.  
 भर्तव्य-, भर्तुम् √भृ द्र.  
 १भर्तृ<sup>१</sup>- (> भा<sup>१</sup>र्थ- पा.) पाग ४, १, १५१.  
 २भर्तृ- प्रभृ. √भृ द्र.  
 √भर्त्स् पाधा. चुरा. आत्म. तर्जने.  
 भर्त्सेन- -ने पा, पावा ८, २, ९५.  
 भर्भर- पाठभो २, ३, ३५.  
 √भर्व् (वधा.)<sup>१</sup> पाधा. भ्वा. पर. हिंसा-याम्, <sup>१</sup>भर्वति<sup>१</sup> अप ४८ १५; निघ २, ८.  
 √भल् पाधा. भ्वा. आत्म. परिभाषण-हिंसादानेषु, चुरा. आत्म. आभण्डने.  
 भल<sup>१</sup>- <sup>१</sup>लाय गोगृ ४, ६, १३; द्रागृ ४, २, २<sup>१</sup>.  
 भलग- (> भालगक- पा.) भगल-टि. द्र.  
 भलन्दन<sup>१</sup>- पा, पाग २, ४, ६३<sup>१</sup>; पाग ४, १, ११२; २, ८०<sup>०</sup>.  
 भालन्दन- पा ४, १, ११२; -०न वौश्रौप्र ५३, १; वैघ ४,

८, १२; -नः ऋअ २, ९, ६८; शुअ २, ९४; साअ १, ७७; ५६३; -नस्य चाअ १६ : १६<sup>१</sup>; -नाः वौश्रौप्र ४१ : १२.  
 भालन्दनक- पा ४, २, ८०.  
 भलन्दन-वत् वौश्रौप्र ५३ : २; वैघ ४, ८, १२<sup>१</sup>.  
 √भल्ल् पाधा. भ्वा. आत्म. परिभाषण-हिंसादानेषु.  
 भल्ल- पाठना ४, ११७; पाग ४, २, ७५; २, ८०<sup>०</sup>; -<sup>१</sup>ल्लाय गोगृ ४, ६, १३; द्रागृ ४, २, २<sup>१</sup>.  
 भल्ल- पा ४, २, ७५.  
 भाल्लेय- पा ४, २, ८०.  
 भल्लकीय- (> भा<sup>१</sup> पा.) पाग ४, १, ८६.  
 भल्लपाल- (> भाल्लपालेय- पा.) पाग ४, २, ८०.  
 भल्लवि-> भाल्लवि<sup>१</sup>- > १ भाल्ल-वेय<sup>१</sup>- -यः शुअ ४, १८७.  
 भाल्लवि-ब्राह्मण<sup>१</sup>- -णम् द्राश्रौ ३, ४, २; -णे वृदे ५, २३.  
 भाल्लवि-स्तोम- -माः वौश्रौ १८, २७ : १.  
 २ भाल्लवे (>) यी<sup>१</sup>- -यी वृदे ५, १५९.  
 भाल्लविन्<sup>१</sup>- -वितः निस् ३, ६ : २७; ५, १ : ७; ६, ३ : १६; ७, ५ : ११; वाध १, १४; वौघ १,

a) वैप १ द्र. b) संग्राम-नामन्-। c) पाका. पाठः। d) व्यप.। e) नाप. (लृष्ट-] यव-। व्यु. ? < अस्ज् इति दु., < √भृज् [भर्जने] इति स्क.। f) = साम-भेद। तेनदृष्टीयः प्र.। g) अपत्यार्थे ढक् प्र.। h) तु. पागम.। i) या ९, २३ परामृष्टः द्र.। j) घा. अदने वृत्तिः। k) वैप २, ३खं. द्र.। l) BC. फलाय इति ?। m) = ऋषि-विशेष-। n) कलन्दन- इति भोजः ( तु. पागम. )। o) अर्थः ?। p) बा<sup>१</sup> इति पाठः ? यनि. शोधः। q) भाल्ल<sup>१</sup> इति पाठः ? यनि. शोधः। r) फल्लाय इति BC.। s) = भाल्लविन्-। वैप ३ द्र.। t) ढक् प्र. उसं. ( पा ४, १, १२३ )। u) उप. = १ ब्राह्मण-। v) विप. ( श्रुति- )। तेन प्रोक्तमित्यर्थे प्र. उसं.। w) = ब्राह्मण-विशेष-, आचार्य-विशेष-। पूर्वे कल्पे प्रोक्तार्थे णिनिः प्र. ( पा ४, ३, १०५ ), अन्यत्र प्रोक्तप्रत्ययान्तात् तदधीत तद्वेदेत्यर्थे प्र. लुक् ( पा ४, २, ६४ [वैतु-न्यासकारः < भाल्लव- इति, पासि. < भल्ल- इति] )।

१, २७; -विनाम् निस् ३, ३ :  
 १५.  
 मल्लवि-क<sup>३</sup> - कम् आपश्चौ २१,  
 १६, १५; -के हिश्री १६, ६, ३.  
 मल्लतक- पाठभो २, २, ४२.  
 मल्लु, ल्लूक- पाठ ४, ४१.  
 रभ-व- १भ- द्र.  
 रभव<sup>१</sup> - वः अप ४३, ५, १९; अन्न;  
 वेज्यो १०<sup>०</sup>; -वम् वाश्री २, २,  
 ४, १२; आमिगृ; अप १, ३७, ४<sup>०</sup>;  
 अशा ७, ४<sup>०</sup>; -वत्य आपमं  
 २, १८, २२; आमिगृ; -वाय  
 शाश्री ४, १८, ५××; आपमं; मागृ  
 १, ११, १८<sup>१</sup>.  
 भवानी- पा ४, १, ४९; -चै  
 शाश्री ४, १९, ५<sup>१</sup>; पागृ ३, ८,  
 १०.  
 भव-त्रात- -तः जैश्रीका १७२<sup>०</sup>.  
 भवत्रात-वचत्- -चः जैश्रीका  
 २१५; -चसि जैश्रीका ३<sup>१</sup>.  
 भव-शर्व- -र्वाभ्याम् शाश्री ४, २०,  
 १<sup>१</sup>; -वौ अन्न ४, २८.  
 भव-शर्व-पशुपल्यु(ति-उ)प्र-रुद्र-  
 महादेवे(व-ई)शान- -नानाम्  
 कौसू ५१, ८.  
 भवा-रुद्र<sup>१</sup> - -द्रौ अन्न ११, २<sup>१</sup>.  
 ऋभवा-शर्व<sup>१</sup> - -०र्वा अप ३२, १,  
 ३१; -वौ अप ३२, १, १७;  
 अन्न १०, १; -ऋं वौ वैताश्री  
 २९, १०; कौसू २८, ८××; अप.  
 भवाशर्वीय<sup>१</sup> - -यम् अप ४२,  
 २, १०.  
 भवो(व-उ)रुद्र<sup>१</sup> - -०व अप २०, ६,

१<sup>१</sup>.  
 रभव- ✓भू द्र.  
 रभवत्<sup>१</sup> - पाठ १, ६३; -वतः पागृ  
 २, २, २०; पावा १, १, २७;  
 -ऋं वता आमिगृ ३, ३, १ : १०;  
 ११; -वस्तु गौपि २, ३, ३५;  
 -वद्भिः अप ३०<sup>३</sup>, १, २; -वद्भयः  
 कागृ ६५, ६; विघ ७४, ८;  
 -०वन् गौघ ६, १४; -वन्तः  
 आपश्चौ ८, १५, १७<sup>१</sup>; आपमं;  
 -वन्तम् पागृ १, ३, ४<sup>१</sup>; पावा  
 ३, ३, १६१; -ऋं वान् वौश्री २,  
 ३ : १९; आगृ; गोगृ २, १०,  
 ३४<sup>१</sup>.  
 भवती- -०ति वौगृ २, ५,  
 ४९-५१; वागृ; -ती कौसू ५७,  
 १७; -ऋं तीभ्यः कागृ ६५, ७;  
 हिगृ १, १८, ३; विघ ७४, ८;  
 -ऋं त्यः आपमं २, २०, २२;  
 कागृ ६५, ७.  
 भवति-म(घ्य >)घ्या<sup>१</sup>-  
 -ध्यान् वागृ ५, २८.  
 भवत्य (ति-अन्त्य > )  
 न्त्या<sup>१</sup> - -न्त्याम् वागृ ५, २८.  
 भावल्क- पा ४, २, ११५.  
 भवत्-छ (<श)व्द- -व्दः गौघ  
 २, ४३.  
 भवत्-पुरोहित<sup>१</sup> - -तौ वृदे ५, १२६.  
 भवत्-पृ (व >)वां<sup>१</sup> - -र्वया जैगृ  
 १, १२ : ५४; ५६; आपघ १,  
 ३, २८, हिघ १, १, १०३; -र्वाम्  
 पागृ २, ५, २; वाघ ११, ६८;  
 वौघ १, २, १७; १८; २, १०,

४३.  
 भवद्-वन्त<sup>१</sup> - -न्तम् विघ २७,  
 २५.  
 भवद्-न(न्त्य >)न्त्या<sup>१</sup> - -न्त्या  
 जैगृ १, १२ : ५५; आपघ १, ३,  
 ३०; हिघ १, १, १०५; -न्त्याम्  
 पागृ २, ५, ४; वाघ ११, ७०;  
 वौघ १, २, १८.  
 भवद्-वादि- -दिभिः पावा ५,  
 ३, १४.  
 भवद्-नाघ<sup>१</sup> - -घान् विघ २७,  
 २५.  
 भवदीय- पा ४, २, ११५.  
 भवन्-मध्य, घ्या<sup>१</sup> - -ध्यम् विघ २७,  
 २५; -घ्यया आपघ १, ३, २९;  
 हिघ १, १, १०४; -घ्याम् पागृ  
 २, ५, ३; वाघ ११, ६९; वौघ १,  
 २, १८.  
 भवन्-मध्य(न >)मा<sup>१</sup> - -मया जैगृ  
 १, १२ : ५५.  
 रभवत्- ✓भू द्र.  
 रभवताः<sup>१</sup> अप १, ७, ४.  
 भवन- ✓भू द्र.  
 भवन्त- पाठ ३, १२८.  
 भवन्ति- प्रवृ. ✓भू द्र.  
 भवाक- पाठना ४, १६.  
 रभवान् वाद्युश्री ३, १० : ३.  
 भवितव्य-, भवित्- प्रवृ. ✓भू द्र.  
 भ-शेष- ✓भा द्र.  
 ✓भप् पाया. भ्वा. पर. भर्त्तने.  
 १भप- पा ३, १, १३४.  
 २भप<sup>१</sup> - (>भपी- पा.) पाग ४, १,  
 ४१.

a) = १ब्राह्मण-। स्वार्थिकः प्र.। b) चक. वैप १, २३ २५ h, m द्र.। c) = आश्रान् रुद्र-देवता-। d) पाभे.  
 वैप २, ३३. पशुभ्यः तैत्रा ३, ७, ७, ११ टि. द्र.। e) चतः इति पाठः? दनि. शोधः [L. J. W.].। f) चवः  
 इति पाठः? दनि. शोधः। g) = वृक्त-विशेष-। h) वस.। i) वैप २, ३३. भवोद्भवाय तैत्रा १०, ४३, १  
 टि. द्र.। j) वैप ३ द्र.। k) तपा. भवान् <> भोः <> भोः इति पाभे.। l) वस. पू. सं. द्र.।  
 m) उप. = २शाय-। n) भरताः? इति संस्कृतां। o) वृ. पागम.।

३भप<sup>a</sup> -> १भाष्य<sup>b</sup> -> °प्य-गार्ग्य-  
-न्यौ अप ४३, ४, १९.

√भस् (वधा.)<sup>c</sup> पाधा. जु. पर.  
भर्त्सनदीपयोः, ऋभस्ति आपश्चौ  
१४, २९, ३२<sup>d</sup>; हिश्रौ १५,  
७, १६<sup>e</sup>; आम्रिगु; अप ४८,  
१५<sup>e</sup>; निघ २, ८<sup>e</sup>; ऋवप्सति<sup>e</sup>  
अप ४८, १५; निघ २, ८;  
ऋवधाम्<sup>e</sup> अप ४८, १५; निघ  
२, ८; या ५, १२.  
ऋभसथः<sup>e</sup> अप ४८, १५; निघ  
२, ८; या ५, २२.

वप्सत् - वप्सता या ९, ३६<sup>f</sup>.

वप्सती - ती या ६, ४<sup>f</sup>.

भस्त्र, स्त्रा - पाठ ४, १६८; पाग २,  
४, ३१<sup>f</sup>; ४, २, ९०; ४, १६;  
-स्त्राम् लाश्रौ ६, २, १२;  
-स्त्रायाः निसू ७, ११ : ११.  
भस्त्र-(क>)का- पा ७, ३, ४७.  
भस्त्र-फल(ल>)ला<sup>g</sup> - पावा ४,  
१, ४; ६४.

भस्त्रा-ग्रहण- -णम् पावा ७, ३,  
४७.

भस्त्रान्याय- -यः निसू १, १० :  
२१; -यम् निसू १, १० : २७.

भस्त्रिक- पा ४, ४, १६.

भस्त्रिका- पा ७, ३, ४७.

भस्त्रीय- पा ४, २, ९०.

१भस्मन्<sup>h</sup> - पाठ ४, १४५; -स्म  
काश्रौ १७, १, ६<sup>f</sup>; आपश्चौ  
१, २५, १२; २, ११, १××;  
वौश्रौ; -स्मनः काश्रौ २५, ४,  
१९; आपश्चौ १६, १२, १२;

वौश्रौ; -स्मना आश्रौ ३, १०,  
१४; १२, २२; शाश्रौ ३, १९,  
१५; काश्रौ; आपश्चौ ७, २७,  
४<sup>f</sup>; वौश्रौ ४, १० : १३<sup>f</sup>;  
भाश्रौ ७, २२, १<sup>f</sup>; हिश्रौ ४, ५,  
४४<sup>f</sup>; -स्मनि शाश्रौ १३,  
१२, ७; काश्रौ.

भस्म-करीष-कृष्ट-च्छाया-पथि-  
काम्य- -म्येषु गौध ९, ४५.

भस्म-केश-तुष-कपाला (ल-अ)  
मेध्य- -ध्यानि गौध ९, १६<sup>f</sup>.

भस्म-जल- -लैः वैध २, १५, ४.

भस्म-तस् (: ) कप्र ३, ४, ११<sup>g</sup>.

भस्म-तुषा(ष-अ)धिष्ठान- -नम्  
आपध २, २०, ११; हिघ २, ५,  
९८.

भस्म-परिमार्जन- > °र्जन-प्रदा-  
हन-तक्षण-धावन- -नानि वाध  
३, ४९.

भस्म-प्रवेशन- -नम् आपश्चौ  
१६, १३, २; हिश्रौ ११, ५, १३.

भस्म-मिश्र- -श्रान् वौश्रौ १,  
१० : ३; ५, ११ : १८; १२, ६;  
९; वौगु २, ८, ६; ३, १२, ७;

वौपि २, ९, ४; १७; ११, ६.

भस्म-मिश्रि(त>)ता- -ताभिः  
काध २७७ : ८.

भस्म-मुष्टि- -ष्टी माश्रौ ६, १,  
४, ३४; वाश्रौ २, १, ३, ३५.

भस्म-र<sup>1</sup> - -राः वौश्रौ २४,  
१४ : १.

भस्म-राजि- -ज्या आश्रौ ३,  
१०, १५.

भस्म-राशि- -शिमू गौपि १,  
६, २.

भस्म-शेष- -पम् अप ४०, ५,  
५.

भस्म-समारोपण- -णम् आम्रिगु  
२, ७, ४ : १३; वौगु ४, ९, १२;  
१०, २.

भस्म-सात् वैगु ५, १२ : १३;  
पाग १, ४, ५७.

भस्म-स्नान- -नम्; -नेन अप  
४०, ४, १.

भस्मा(स्म-अ)ङ्गार- -रान् गौपि  
१, ५, १४.

भस्मा(स्म-अ)न्त- -न्ते आश्रौ  
३, ११, २०; शाश्रौ ८, ८, ११;  
वौश्रौ ९, ११ : १३; वैश्रौ १३,  
१३ : १२; द्राश्रौ ६, ३, १९;  
लाश्रौ २, ११, १३; वैताश्रौ २३,  
१३.

भस्मा(स्म-अ)स्थि-रोम-तुष-  
कपाला(ल-अ)पस्नान<sup>m</sup> - -नानि  
वौध २, ३, ३७.

भस्मा(स्म-अ)स्थ्य(स्थि-अ)श्मा-  
(स्म-अ)ङ्गार- -राः अप ७२, १,  
६.

भस्मी√कृ, भस्मीकरोति या  
७, २०; १४, ३३.

भस्मी√भू, भस्मीभवति  
वाध ६, ३२.

भस्मो(स्म-उ)त्कर- -रम् आपश्चौ  
९, ११, १९; हिश्रौ १५, ३, ३९.

भस्मो(स्म-उ)दक- -क्तेन शध  
१६७.

a) = ऋषि-विशेष- । b) यञ् प्र. उत्सं. (पा ४, १, १०५) । c) या ५, १२ पा ६, ४, १०० परामृष्टः  
द्र. । d) सकृत् गभस्ति इति पाठः ? यन्ति. शोधः ( तु. हिश्रौ. वैप १, २३२६ a च ) । e) धा. अदने वृत्तिः ।  
f) तु. पागम. । g) = श्रोपथि-विशेष- । h) वैप १ द्र. । i) पाभे. वैप १, २३२६ g द्र. । j) °श-नख-तु<sup>o</sup>  
इति अस्मृ. पाठः । k) भस्मनः इति जीसं. । l) सादृश्ये रः प्र. उत्सं. ( पा ५, २, १०७ [ तु. सूची ] ) ।  
m) द्वस. । अपस्नान- = स्नानापगतजल- ।

भस्मो(स्म-उ)द्वृत्<sup>१</sup>- -त्स् काश्रौ  
४, १५, ३३.

भस्मो(स्म-उ)द्वपत्- -त्स् काश्रौ  
१६, ६, १.

भस्मोद्वपना(न-आ)दि- -दि  
काश्रौ १६, ६, ३.

भस्मो(स्म-उ)द्वाप<sup>२</sup>- -पे काश्रौ  
२५, २, २५.

भसद्वृ<sup>३</sup>- पाठ १, १३०; -सत् काश्रु  
३०, ६; वाश्रु १६, २; -सदः

वाश्रौ ३, २, ५, ४९; -सदस्  
आपश्रौ १, १९, ५; माश्रौ १,

२१, ३; नाश्रौ १, २, २, ८; २५;  
वाश्रौ १, २, ४, ४२; हिश्रौ १, ५,

४४; काश्रु ३०, ५; माश्रु १, १४,  
१७; -सदि माश्रौ १, ८, २, १२;

वैश्रौ १०, १० : १७; हिश्रौ ४,  
३, २५; गो २, २६.

भासद्वृ<sup>४</sup>- -दात् आपसं १, १७,  
४<sup>५</sup>.

भसवत्-त्स (: ) आपश्रौ १०, ९, ३;  
माश्रौ १०, ५, १५; नाश्रौ २, १,

२, ५; वैश्रौ १२, ८ : १०<sup>६</sup>;  
हिश्रौ १०, २, ६<sup>७</sup>; आश्रु ४,

८, ८.  
भसद्वृ-देश- -शस् वाश्रौ १, ६, ४,

१९; माश्रु १, २० : ८.  
भस्त्र, स्त्रा-, भस्त्रिक-, भस्त्रीय-,

भस्म-करीष<sup>८</sup> प्रन्., १भस्मच्-  
✓भस् द्र.

भस्मन्- ( > भास्मायन-  
[ > न्य- पा ५, ३, ११३ ] पा.)  
पाठ ४, १, ९८.

✓भा<sup>१</sup> पावा. अदा. पर. दीर्घा, भाति  
वायूश्रौ ४, २६ : २६; अष १,

५०, ९; अशां १३, ५; वौष ४,  
८, २; विष ८, २८; आ २, १४;

३, १०; भान्ति वृद् २, ६४; वा  
११, १५; ऋभासि वापश्रौ १५,

८, १२; वौश्रौ ९, ८ : १३; माश्रौ  
११, ८, १६; वैश्रौ १२, ९ : १३;

हिश्रौ २४, ३, ६; भाशि १२०;  
बभात् वायूश्रौ ४, २६ : २८;

२९; ३१; ३२; ३५; ३८; भायुः  
आश्रौ ११, ६, ४; ?भायाः<sup>९</sup>

वायूश्रौ ४, ५० : ७.  
२भ<sup>१०</sup>- भाति कौश्रु १, १७, ३; शांश्रु

१, २५, ५; भेषु अष ५८<sup>११</sup>, ४, ४.  
भ-अह<sup>१२</sup>- ऋहन् आश्रु २, ५,

३ : २१; कौश्रु ३, ७, ६.  
भ-प्रश(स्त >)स्ता- -स्ताम्

कौश्रु २, ७, ८; शांश्रु २, ११, ९.  
भ-युज<sup>१३</sup>- -युक् वैज्यो २२.

भ-शेष- -षः वैज्यो २७.  
भ-समूह- -हेन वैज्यो २०.

भां(भ-अं)श- -शाः वैज्यो १५.  
भांशा(श-अ)ष्टक-स्थान-

भे वैज्यो १९.  
भा(भ-अ)दान- -नम् वैज्यो

१७.  
भादानि(क >)का<sup>१४</sup>- -काः

वैज्यो २१.  
भा(भ-अ)र्ध- -र्धे वैज्यो २७.

भा<sup>१५</sup>- भाभिः अष ५८<sup>१६</sup>, १, ४.  
भा-व(त् >)ती<sup>१७</sup>- -ती अष

४८, ११०<sup>१८</sup>.

भात्- > भान्ती- -न्तीः वृ२७, ५.  
भात्- पाठ १, ७३.

१भानु<sup>१९</sup>- पाठ ३, ३२; -ऋन्वे  
आश्रौ ३, ७, ५; वैश्रौ १८, ५ :

१०; -ऋत्तुः आश्रौ ४, १५, २;  
आपश्रौ १५, १७, ५<sup>२०</sup>; वौश्रौ ९,

१७ : ३६<sup>२१</sup>; भाश्रौ ११, १७,  
५<sup>२२</sup>; वायूश्रौ ३, ४७ : १; वैश्रौ

१८, १७ : ४६<sup>२३</sup>; अष १, ११,  
२; ४८, १११<sup>२४</sup>; निष १,

९<sup>२५</sup>; -तुना आपसं २, ११,  
२४<sup>२६</sup>; शंष ११५; ऋश्र २, ५,

३७<sup>२७</sup>; वा १२, ७; -तुभिः  
वौश्रौ १२, २० : ९<sup>२८</sup>; -ऋत्तु

आश्रौ १, ११, ९; २, २, १४; ३,  
१०, १५; ५, २०, ६; शाश्रौ ३,

३, ५<sup>२९</sup>; वौश्रौ ३, ३० : १२; ८,  
१५ : ६; १४, १५ : १५; आश्रु

४, ६, ७; अषाव १, ३; वा १२,  
७; -तोः शौच ३, ८७.

भानु-मव- -मतः वा १४, २५;  
-मन्ति वा १४, २५; -नादि

वौश्रौ २६, २९ : ६.  
भानुमती<sup>३०</sup>- -ती शाश्रौ

११, १३, १५.  
भानुमतिन्<sup>३१</sup>- -ती

शाश्रौ १४, ३६, १.  
भानुमव-तम- -नम् अष १,

९, ५.  
भानु-शब्द- -द्वे ऋश्र ५, ४९.

भानु(तु-उ)पस्थिति- -तिम्  
वैश्रौका १३२.

ऋभान्त- -न्तः काश्रौ १७, १०, ६;

- a) वस. । b) उप. = राशि- । c) वैष १ द्र. । d) पामि. वैष १, २३२६ ग द्र. । e) व्यप. ।  
f) पा, पावा ८, ४, ३४ परानुष्टः द्र. । g) पाठः ? भापाव इति शेषः (तु. प्रकरणम्) । h) = नक्षत्र- । कः प्र.  
उत्सं. (पा ३, १, १३५) । i) उप. कर्तरि क्त् । j) विप. (कञ्ज-) । नत्वर्थावप् टन् प्र. । k) भावे क्त् प्र. ।  
l) = उपन्- । m) शोधार्थं वैष १, १७९४ ग द्र. । n) = अहद- । o) पामि. वैष १, १२७३ ० द्र. ।  
p) = ऋच्- (ऋ ४, १३, २) ।

वौश्रौ १०, ४२:३; माश्रौ ६,  
२, १, २३; वाश्रौ २, २, १, १७.  
फंभाम<sup>१</sup>- पाठ १, १४०९; -मः अप  
४८, १८; निघ २, १३; -माय अश्र  
१८, ४; -मेन वाश्रौ १, ५, १, ९.  
फंभामित<sup>२</sup>- -तः माश्रु ३, १२:  
२२<sup>३</sup>; तैप्रा १२, ८०.  
भामिन्<sup>३</sup>- -मिनः या १४, २५<sup>४</sup>.  
भांश- √भा द्र.  
भा-ऋजीक- √भास् द्र.  
भाक्त-, °क्तिक-, °क्त्यक- √भज् द्र.  
भाक्ष- √भज् > भक्षा- द्र.  
भाक्षालक- भक्षाली- द्र.  
भाक्षस्थलक- भक्षास्थली- द्र.  
भाक्षि- रभक्ष- द्र.  
शभाग- भग द्र.  
रभाग- प्रभृ. √भज् द्र.  
भागन्ति<sup>५</sup>- -न्तयः वौश्रौप्र ६ : ४;  
२७ : २.  
भागलक-, °लि- भगल- द्र.  
भागवत-, °वती- भग- द्र.  
भागिक-, १, २भागिन्-, भागिनी-  
√भज् द्र.  
भागिनेय-, °यी- भगिनी- द्र.  
भागी- भग- द्र.  
भागुरि<sup>६</sup>- -स्यः वौश्रौप्र ४१ : १५;  
-रिः वौश्रौप्र ४३ : ५; वृदे ३,  
१००; ५, ४०; ६, ८६; -रिम्  
जैश्र १, १४ : ९.  
भागुरित्थि<sup>७</sup>- -स्थयः वौश्रौप्र ६ : ४.  
भागुरित्थायन- -नाः वौश्रौप्र  
४७ : ४.  
श-रेभाग्य- भग- द्र.  
धभाग्य- √भज् द्र.

शभाग्र- -येण सस् ३७, ६९<sup>९</sup>.  
भाङ्ग- प्रभृ. भङ्ग- द्र.  
भाङ्गाश्विन<sup>८</sup>- -तः वौश्रौ १८, १३:३.  
भाङ्गिक-, भाङ्गिन- भङ्ग- द्र.  
√भाज् पावा. चुरा. उभ. पृथक्कर्मणि.  
भाज्-, भाज- √भज् द्र.  
भाजक् पाग १, १, ३७.  
शभाजन- √भज् द्र.  
रभाजन- पा, पाग २, ४, ६७; ४, १,  
१०४.  
भाडित-, °तायन-, °त्य- भडित- द्र.  
भाडिलायन- भडिल- द्र.  
शभाण्ड- रभण्ड- द्र.  
रभाण्ड- रभण्ड- द्र.  
रेभाण्ड [, ण्डल<sup>९</sup>] - (> भाण्डी  
[, ण्डली]- पा.) पाग ४, १, ४१.  
भाण्ड-लेप- प्रभृ. रभण्ड- द्र.  
भाण्डव- भण्डु- द्र.  
भाण्डागार<sup>१०</sup>, √भाण्डि रभण्ड- द्र.  
भाण्डि- (> भाण्डि-शाला- पा.)  
पाग ६, २, ८६.  
भाण्डिकायन- भण्डिक- द्र.  
भाण्डित-, °तायन-, °त्य- भण्डित- द्र.  
भाण्डिलायन- भण्डिल- द्र.  
भानु- √भा द्र.  
भानु- (> °त्र-) भानु- टि. द्र.  
भादान-, °निका- √भा द्र.  
भाद्रपद-, °दी-, भाद्रमातुर- प्रभृ.  
√भद्र द्र.  
शभानु- √भा द्र.  
रभानु<sup>११</sup>- -नोः चाश्र १६ : ६.  
भान्त- √भा द्र.  
भान्द्यश्व- भान्यध- द्र.  
√भाम् पावा. भ्वा. आत्म., चुरा. उभ.

क्रोधे, फंभामते अप ४८, १८;  
निघ २, १२.  
भामण्य<sup>१२</sup>- -ण्याः वौश्रौप्र १७ : १६.  
भामित-, भामिन्- √भा द्र.  
भायजात्य- भयजात- द्र.  
भायिन्<sup>१३</sup>- -यी अप ४८, ९५<sup>१४</sup>.  
भार-, भारक- √भृ द्र.  
भारङ्गि, ङ्गी<sup>१५</sup>- (> °ङ्गि, ङ्गी [क >]।  
का-, °की- पा.) पाग ४, २,  
११६.  
भारण-, भारत- √भृ द्र.  
शभारती<sup>१६</sup>- -ती अप ४८, १०२<sup>१७</sup>;  
वृदे ३, १३; निघ १, ११<sup>१८</sup>; या  
८, १३<sup>१९</sup>; -तीम् वृदे ५, १०१;  
-फंत्वे<sup>२०</sup> आपश्रौ १२, ४, ६; वैश्रौ  
१५, ४ : ६; हिश्रौ ८, १, ५०.  
भारती-वत्- -वते माश्रौ २, ३, २,  
२<sup>२१</sup>.  
रभारती-, °तेय-, भारद्वाज- √भृ द्र.  
भारम- (> °भेय-)भरम- द्र.  
शभारा<sup>२२</sup>- -राः शंश ११६ : १७.  
रभारा-, °रिन्- प्रभृ. √भृ द्र.  
भारिष्टकि<sup>२३</sup>- -कयः वौश्रौप्र ३१ : ६.  
भारुजिक- भरुज- द्र.  
भारुण्ड-, भारुण्डेय- भरुण्ड- द्र.  
भारुण्य<sup>२४</sup>- -ण्यः वौश्रौप्र २० : ३.  
भार्गव- प्रभृ. सृणु- द्र.  
भार्गायण-, भार्गी- √भृज् (दीप्ती) द्र.  
भार्तिक- √भृ द्र.  
भार्श्य- १भर्तृ- द्र.  
भार्घ- √भा द्र.  
भार्श्यश्व- √भृम् द्र.  
भार्या- √भृ द्र.  
भार्श्य- १सृश- द्र.

a) वैप १ द्र. । b) पाभे. वैप १, २३२८ a द्र. । c) पाभे. वैप १, २३२८ b द्र. । d) ऋषि-विशेष- ।  
e) पाठः? भासेन इति शोधः (तु. सस् ३५, ३८) । f) पक्षान्तरे पाठः । g) यज्ञ-नामन्- । h) सस्थ. निघ ३,  
१७ नार्यः इति पाभे. (तु. नार्यो इति मूको.) । i) तु. पागम. । j) तारङ्गि- इत्यन्ये (तु. पागम.) ।  
k) सपा. भारत्यै <> भारतीवते इति पाभे. । l) = अप्सरो-विशेष- ।

भालकायनि<sup>a</sup>- -ति: वौश्रौप्र ४४:२.

भालगक- भलग- द्र.

भालन्दन-, °नक- भलन्दन- द्र.

भालु- पाठवृ १, ५.

भालुक्य- -क्या: वौश्रौप्र ४८:७.

भाल्ल- भल्ल- द्र.

भाल्लकीय- भल्लकीय- द्र.

भाल्लपालेय- भल्लपाल- द्र.

भाल्लवि-, °विक-, °विन्-, १, २भाल्ल-  
वेय- भल्लवि- द्र.

भाल्लेय- भल्ल- द्र.

भाव- ✓भू द्र.

भा-व(त् >)ती- ✓भा द्र.

भावत्क- १भवत्- द्र.

भावन-, °ना- प्रभृ. ✓भू द्र.

भावयव्य- -व्यम् ऋअ २, १, १२६;  
-व्यस्य वृदे ३, १५५; या ९,  
१०; -व्यात् वृदे ३, १५०;  
-व्याय वृदे ३, १५६<sup>३</sup>; -व्ये  
शांश्रौ १६, ११, ५.

भावयव्य- रोम ( श > ) शा-  
-शयो: ऋअ २, १, १२६.

भ.वयव्य-सुत- -त: वृदे ३, १४३.

भावयित्वा, भावित्- ✓भू द्र.

भावित्र- पाठ ४, १७१.

१भाविन्<sup>b</sup>- -त्री शुभ्रा १, ४६; ४,  
४७; -विभ्य: शुभ्रा ३, ५६.

भाव्यु(वि-उ)प(घा >)घ<sup>c</sup>- -घ:  
शुभ्रा १, ४६; ३, २२; ४, ३५;  
-घम् शुभ्रा ७, ९.

२भाविन्- ✓भू द्र.

१भावुक- पाठभो २, २, २६.

२भावुक- ✓भू द्र.

१भाव्य<sup>d</sup>- -व्यस्य वृदे ३, १४०.

२भाव्य- ✓भू द्र.

✓भाप्<sup>e</sup> पाधा. भ्वा. आत्म. व्य-  
क्त्यां वाचि, भापते वाधूश्रौ  
४, ३० : २२; भापन्ते वाधूश्रौ  
४, ३० : २१; या २, २; वभा-  
षत् विध १, ४८; ६२; वृदे ५,  
१२७; भापेत् वाधूश्रौ २, १७ :  
१; ४, ३० : २२; गीर् १, ४,  
२; ६, १७; जैग्य; भापेरन् द्राश्रौ  
७, ३, १२; ताश्रौ ३, ३, १४.  
वभाषे विध ९९, ७; वृदे ५,  
३२.

भाप्यते अप ४७, १, २०; २,  
१; या २, २; ३; ६, ३०; ३१;  
याशि २, ४; भाप्यन्ते या २, २<sup>३</sup>.

भापमा(ण >)णा- -णा या ५, २.

भापा<sup>f</sup>- -पाम् आपध २, ३, २;  
हिघ २, १, ३३; -पायाम् या  
१, ४; ५<sup>३</sup>; ऋत ३, ४, ६; ४,  
७, ८; पा ३, २, १०८; ४, १,  
६२××; पावा २, ३, ६९; ३,  
२, १०८××.

भापा-स्वरो(र<sup>g</sup>-उ)पदेश- -शेषु  
मीस् १२, ३, २०<sup>h</sup>.

भापिक<sup>i</sup>- -क: भास् १, ४;  
-कम् शांगृ ६, २, १३; -कस्य  
मीस् १२, ३, २१; -का: या  
२, २; -केभास् १, १७; -केभ्य:  
या २, २.

भापिक-श्रुति- -ति: मीस्  
१२, ३, २१.

भापिक-स्वर- -र: काश्रौ  
१, ८, १७.

भापण- -णम् अप ६४, ३, ४.

भापित- -त: कप्र ३, ७, ६; -तम्.  
अप ६४, ३, ४; विध २००, १;  
अप्रा २, ३, २८; याशि २, ११७;  
-तानि अप ६४, ५, १०; -तेन  
अप २३, १४, १.

भापित-पुंस्क<sup>j</sup>- -स्कम् पा ७,  
१, ७४; -स्कात् पा ६, ३, ३४.

भापितपुंस्क-विज्ञान- -नात्  
पावा ७, १, ७४.

भापितपुंस्का( स्त-अ)नुप-  
पत्ति- -त्ति: पावा ६, ३, ३३.

भापित्वा वैगृ ५, १ : ४.

२भाप्य<sup>k</sup>- -प्येषु शुभ्रा १, १९.

१भाप्य- ३भप- द्र.

✓भास्<sup>l</sup> पाधा. भ्वा. आत्म. दीप्तौ.

भास्<sup>m</sup>- पा ३, २, १७७; भांति  
या ५, २७; ऋभा: आश्रौ ४,  
६, ३; शांश्रौ; या ६, १२××;

भास: या ५, २८; १२,  
७; भासम् या २, १३; १४<sup>३</sup>;  
५, १९; भासा आपश्रौ ५, २,  
४<sup>३</sup>; या २, १३; १४<sup>३</sup>; ४, १६;  
६, १७<sup>३</sup>; भासाम् या २, १४<sup>३</sup>;  
३, १६; ऋभासे काश्रौ १७, ५,  
१०; आपश्रौ; भासो: या ७,  
२३.

ऋभा-ऋजीक<sup>n</sup>- -क: निघ ४,  
३; या ६, ४.

भास्-कर<sup>o</sup>- पा ३, २, २१;  
पाग ८, ३, ४८; -र: वौश्रौप्र  
६: २<sup>a</sup>; अप १, ५०, ९; ६१,  
१, १७; ६४, २, ३; अशां १३,  
५; वाध ११, ३६; या ६, २६;  
-रम् आगिगृ २, ४, ११ : १४;

a) = ऋषि-विशेष- । b) = [अकरटय-] स्वर-संज्ञा- । c) वस. । d) वैप १ द्र. । e) पा ७, ४,

३ परामृष्ट: द्र. । f) भाप. । g) = भापिक-स्वर- । h) ष्ट्रेने इति जीसं. । i) विप.

( [भापा-प्रसिद्ध-] धातु- [या २, २] ), नाप. ( ब्राह्मण-स्वर- ) । तत्रविदितेऽर्थे ट् प्र. उत्तं. ( पा ५, १, ४३ ) ।

j) = विश्लेषणात्मक-ग्रन्थ- । k) भावाद्यर्थे क्प् प्र. ।

जैगृ २, ९ : १४; अप ५३, ४, १; -राः अप २२, ७, ३; -राय अप १२, १, १; -रे अप ५३, ४, ४; ५, ३.

भास्करा(र-अ)ङ्गारक- -कौ आम्रिगृ २, ५, १ : ९; जैगृ २, ९ : ४.

भास्करे(र-इ)न्दु-द्वय- -यम् अप ६४, ६, ६.

भास्-वत्- -वतः भाश्रौ ५, ११, ७; ६, ४, ९; ५, ९; वाश्रौ १, ५, ४, २७; ३५; हिश्रौ ६, ७, २; -वति या २, ६.

भास्वती<sup>a</sup>- -ती अप ४८, ११०<sup>b</sup>; निघ १, ८<sup>c</sup>; या ९, २६; -तीः पागृ ३, ३, ५<sup>d</sup>; -तीम् काश्रौ ४, १४, १३; वेताश्रौ ७, ९; अप ४५, १, १८; -त्यः निघ १, १३<sup>e</sup>.

१भास<sup>d</sup>- -से अप ७२, १, ६.

भासन- -नम् या १, २०.

भासनो(न-उ)पसंभापा-ज्ञान-यत्न-विमल्यु(ति-उ)पमन्त्रण- -णेषु पा १, ३, ४७.

भासन्त- पाउ ३, १२८.

भासमान- -नः या ६, २५; ३२.

भासयत्- -यन् वृदे २, ६२.

भासयन्त- पाउभो २, २, १३८.

भासुर- पा ३, २, १६१.

भास्वर- पा ३, २, १७५; -०र विघ ९८, ४२.

२भास<sup>a</sup>- -सः वौश्रौ १६, १४ : १७; -सम् आश्रौ ८, ६, २१; वाघ २८, १३; शंघ १०५; -से लाश्रौ ६,

१२, ५; -सेन लाश्रौ ७, ५, १२.

भास-निघन- -ने लाश्रौ ७, ६, १९.

भास-वैरूप- -पयोः लाश्रौ ६, १२, ५.

३भास<sup>e</sup>- -सस्य अप ७०<sup>f</sup>, ३, ४.

भासद्- भसद्- द्र.

भास्कर- ✓भास् द्र.

भास्त्रायण-(>°णक-पा.) पाग ४, २, ८०.

भास्त्रायण- -न्य- २भस्मन्- द्र.

भि<sup>g</sup> वैश्रौ २१, २ : ७.

✓भिष्<sup>h</sup> पाधा. भ्वा. आत्म. भिक्षायाम् अलाभे लाभे च, भिक्षते भाश्रौ १०, १२, ४; कौगृ २, ३, १३; शांगृ २, ६, ४; वौगृ २, ५, ४८; भागृ १, १० : १; २; वौघ १, २, ५७<sup>i</sup>; भिक्षस्व वौगृ २, ५, ४७<sup>h</sup>; भिक्षेत आगृ १, २२, ४; ६; पागृ २, ५, २; ७, ६; आम्रिगृ १, १, ४ : १८<sup>h</sup>; वौगृ २, ५, ४९; हिगृ १, ७, १३<sup>h</sup>; जैगृ १, १२ : ५४<sup>h</sup>; आपघ १, ३, २८; वौघ १, २, १८; ५७<sup>h</sup>; २, ६, २४; विघ ९६, ५; हिघ १, १, १०३; भिक्षेत आम्रिगृ २, ४, ४ : ८; शंघ १४२; वौघ ३, ७, १०.

भिक्ष-(>✓भिक्ष पा.) पाग ३, १, २७.

भिक्षण- -णम् आपघ २, १०, ३; हिघ २, ४, ३; -णे आपघ २, १०, १; हिघ २, ४, १.

भिक्षमाण- -णः आपघ १, ३, २५; हिघ १, १, १००; -णेषु वौघ २, ३, १९; गौघ ५, २३.

भिक्षा- पाग ४, २, ३८; ३, ७३; -क्षया जैगृ २, ५ : १८; -क्षा आपघ १, ७, १४; १९, ७; हिघ १, २, ७१; ५, १०९; -क्षाम् वौश्रौ १७, ३९ : २८; आगृ; -क्षायाम् आपघ १, ७, १४; हिघ १, २, ७१.

भैक्ष- पा ४, २, ३८; ३, ७३; -क्षम् कौगृ २, ३, १६; शांगृ; -क्षस्य कागृ १, ३२; कौसू ५७, २९; वौघ १, २, ५७<sup>i</sup>; -क्षत् आपघ १, ३, ४२; हिघ १, १, १११; -क्षाय वौश्रौ २६, ९ : १४; गौघ २२, ३; -क्षेण<sup>j</sup> विघ २८, ५०; ५४, १३; १५; -क्षैः कौगृ २, ६, ३<sup>i</sup>.

भैक्ष-चर- -राः वाघ ३, ४.

भैक्ष-चरण- -णम् कागृ १, ३०; जैगृ १, १८ : २; विघ<sup>k</sup> २७, २५; २८, ९<sup>i</sup>; ५२; वैघ १, ३, ३; ९, ७; गौघ २, ४२.

भैक्ष-चर्या- -र्या वाघ २०, १८; शंघ ३७९; ४४३; वौघ २, १, ४७; १०, ४२; -र्याम् वौघ २, १०, ४५.

भैक्ष-पात्र- -त्रम् वैगृ २, ८ : २.

भैक्ष-भक्ष- -क्षः जैगृ २, ८ : २२.

भैक्ष-भुज्- -भुक् अप ३६, २०, १; विघ ५३, ९<sup>k</sup>.

भैक्ष-लब्ध- -ब्धे वाघ १९, ३७.

a) वैप २ द्र. b) = उपस्. c) नदी-नामन्. d) भाप. e) = पक्षि-विशेष. f) पाठः ?

हि इति शोधः (तु. सपा. वौश्रौ २८, ९ : २१)। सप्र. शौ ७, १०५, १ विभे. g) पावा १, ४, ५१ परामृष्टः द्र.।

h) सपा. भिक्षस्व <> भिक्षेत इति पाभे. i) भैक्षेण इति जीसं. j) पाभे. पृ १८३७ ० द्र. k) 'क्ष्य°

इति जीसं. l) 'क्ष्या° इति जीसं.।

भैक्षा(क्ष-ञ्)चरण-  
-णम् कौट<sup>१</sup> २, ३, १८; ७, २१;  
आमिण्ट २, ७, १ : १३; वैष १,  
२, ९.

भैक्षाचरणा(ण-ञ्)-  
न्त<sup>२</sup>-न्तम् कौट २, ३, ९.

भैक्षा(क्ष-ञ्)चर्य- र्यम्  
वौट २, ५, ४५<sup>३</sup>.

भैक्षाचर्य-वृत्ति<sup>४</sup>-  
-त्तिः वागृ ६, ३<sup>०</sup>.

भैक्षा(क्ष-ञ्)चर्य-  
वृत्ति<sup>५</sup>- -त्तिः कागृ १, ४<sup>०</sup>; मागृ  
१, १, २<sup>०</sup>.

भैक्षा(क्ष-ञ्)ञ्- -ञ्म्  
वैष १, २, ९.

भैक्षा(क्ष-ञ्)भ्यवहरण-  
-णम् विष २८, १०<sup>०</sup>.

भैक्षा(क्ष-ञ्)दिन्- -शी  
आमिण्ट २, ७, ११ : १४; सुधप  
८५ : ५.

भैक्षा(क्ष-ञ्)हार<sup>६</sup>- -रः  
वौट २, ५, ७२; ऋप ३६, २२, १;  
वौष ४, ५, २७; सुध ५६.

भैक्ष्य<sup>७</sup>- -क्ष्यम् शंघ ४०३.  
भैक्ष्य-चर्य- र्यम् वागृ  
५, २८.

भैक्ष्य-वृत्ति<sup>८</sup>- -त्तिः वागृ  
६, १५.

भिक्षा-काल- -लात् वैष ३,  
७, ४.

भिक्षा(क्ष-ञ्)ञ्- -ञ्म् वैष ३,  
७, ६.

भिक्षा-ग्रहण- -णम् पावा ३, २,  
१६.

भिक्षा-चर- पा ३, २, १७.

भिक्षा-चरण- -णम्<sup>९</sup> शांगृ २, ६,  
८; १२, ६.

भिक्षाचरण-त्वाध्याय-  
लोप- -पे वौट ४, ११, १.

भिक्षा-चर्य- र्यम् हिश्रौ १०,  
३, २; आपमं २, ६, १४<sup>१</sup>; पागृ  
३, १२, ८; आमिण्ट १, १, ४ :

१७<sup>१</sup>; ३०; भागृ १, ९; ९<sup>१</sup>; ३,  
४ : १५; हिगृ १, ७, १२; ८, २;

आपष १, ३, २५; हिष १, १,  
१०; -यै आपष १, २६, ११;

हिष १, ७, २२.

भिक्षाचर्य-चरण- -णम् पागृ  
२, ५, १.

भिक्षा-चर्या- -र्या पागृ २, ५,  
११.

भिक्षा-दान- -न्म् गौष ५, १९.

भिक्षा(क्ष-ञ्)दि- -दिषु पावा  
३, १, २६; ४, २, ३८.

भिक्षा(क्ष-ञ्)ज्ञ<sup>१०</sup>- -ज्ञः वैष २,  
१२, ६.

भिक्षा-पात्र- -त्रम् वैष २, ५,  
८; ६, २; ८, ३; ३, ६, ९; ८, २.

भिक्षा-बलि-परिश्रान्त- -न्तः  
वौष २, १०, १६.

भिक्षा-म(ध्व >)ध्या<sup>११</sup>- -ध्याम्  
वौष १, २, १७.

१भिक्षा (क्ष-ञ्) र्य- र्यम्  
विष ९६, २.

२भिक्षा (क्ष-ञ्)र्य<sup>१२</sup>- > र्यिन्-  
-र्या वाघ १६, ३३; शंघ ३८७;

वौष २, १०, ६४; गौष ३, १४.

भिक्षा (क्ष-ञ्)दिन्<sup>१३</sup>- -शी  
वैष २, ८, ७.

भिक्षा (क्ष-ञ्) श्रम- -न्म्

वैष २, ७, ४.  
भिक्षा(क्ष-ञ्)हार<sup>६</sup>- -रः सुध  
५३.

भिक्षाक- पा ३, २, १५५.

भिक्षित- -न्म् शंघ १४२; विष  
५९, १०.

भिक्षित(व्य >)ध्या- -ध्याम् वौष  
१, २, ५७.

भिक्षितुन् वैष ३, ७, ५.

भिक्षित्वा कौट २, ६, २; शांगृ.

भिक्षु- पा ३, २, १६८; पागृ ५, ४,  
२९<sup>१</sup>; -क्षवे विष ५९, १४;

-क्षुः वौष २, १०, १७; विष  
५२, २७; वैष; ऋञ् २, १०,  
११७<sup>१</sup>; -क्षुन् वैष १, ४, २;

-क्षोः वैष २, ९, ७; ३, ९, १;

भिक्षु-क- पा ५, ४, २९; पागृ  
२, २, ३८; ४, १, ४१<sup>१</sup>; २, ४५;

-कः वौष २, १०, १६; -कम्  
विष ५९, १८; ८३, १८; ९६

५; -काः वाघ ८, १६; वैष १,  
९, १; -कान् पागृ २, ९, १२;

-कैः वाघ २१, ३३.

भिक्षुकी- पा ४, १, ४१.

भैक्षुक- पा ४, २, ४५.

भिक्षु-नट-सूत्र- -त्रयोः पा ४,  
३, ११०.

भिक्षु-वत् वैष २, ५, ८; ३, ५,  
१३.

भिक्ष्व(क्ष-ञ्)भाव- -वे विष  
५९, १६.

√भिद्<sup>१४</sup> पाषा. ल्हा. उभ. विदारणे,  
भिचात् ऋ १२, १, १३.

भिन्नत्ति माश्रौ २, १०, ८; वैश्रौ  
७, ४ : ९; कौट; वा ११, २४;

a) सपा. भैक्षा <> भिक्षा इति पाठे. । b) वत्. । c) परत्परं पाठे. । d) दत्त. > वत्. (तु. भाष्यम्) । e) 'क्ष्या' इति जीतं. । f) स्वार्थे ष्यञ् प्र. उत्सं. (पावा ५, १, १२४) । g) मलो. कम्. । h) = वानप्रस्थ-भेद । i) तु. पागम. । j) = श्रापि-विशेष. । k) पा ३, २, ६१ परानुष्टः द्र. ।



भिन्दन्ति कौसू ८६, १५; काशु  
७, ३१; या ५, ५१; भिनद्मि  
कौसू २९, २४१; शैशि २५३;  
भिन्धि शांश्री १२, १, ४१; वौश्री;  
वृदे ७, १४९; ऋभिन्त वौश्री  
१०, ५९ : १०; आमिगृ २, ५,  
११ : २०; अप्राय ६, २; अमि-  
नत् वौश्री १८, ३१ : १९; आपमं  
२, ११, २६१, वृदे ७, १५०;  
या ७, २३; ऋप्रा २, ४४१;  
अभिनः वौश्री १६, २५ : ४१;  
भिन्धात् वौश्री २५, ३४ : ५;  
माश्री ३, ५, ६; हिश्री १५, २, ६;  
हिशु ५, २७.  
ऋभिभेद आश्री ६, ३, १; शांश्री;  
ऋभिभिदुः हिश्री ९, ५, ३७;  
वैताश्री २४, १; वृदे ६, ६४;  
भेत्स्यति कौसू ११६, ७१;  
ऋभित्याः काश्री १६, ४, ३१;  
आपश्री १६, ९, ४; वौश्री.  
भिद्यते<sup>a</sup> वौश्री ३, १५ :  
१४; ९, ४ : २४××; वैश्री;  
भिद्यन्ते वैश्री १७, १० : ९;  
भिद्यताम् आश्री ३, १४, १२;  
काश्री २५, ५, २९; आपश्री;  
भिद्येत काश्री २५, २, २५;  
आपश्री; मागृ २, १५, ५<sup>b</sup>.  
ऋभेदि आपश्री १६, ५, ३; ११;  
वौश्री.  
विभेद > द्वा(द-आ)दि- -दिपु.  
दंवि २, १०.  
भिक्त- -त्तम् पा ८, २, ५९.  
भिक्ति<sup>c</sup>- पावाग ३, ३, १०८; -त्तिः  
वैश्री ११, ८ : १२; -त्तिम्  
काश्री ८, ३, २१.

भित्तिका- पाउ ३, १४७.  
भित्त्वा काश्री १७, ७, ३०; आपश्री;  
भिद्- भिदा जैश्रीका १४२.  
भिदा- पाग, पागवा ३, ३, १०४.  
भिदि- पाउ ४, १४३.  
भिदिर- पाउ १, ५१.  
भिदु- पाउ १, २३.  
भिदुर- पा ३, २, १६२.  
भिद्य- पा ३, १, ११५.  
भिद्यमा(न >)ना- ना सु ३, २.  
भिद्र- पाउ २, १३.  
भिन्द<sup>d</sup>- न्दः या ६, ३२.  
ऋभिन्दत् - न्दन् आपश्री १७,  
१८, १; या ३, २०; -न्दन्तः  
शुप्रा ३, १२९.  
भिन्दान- -नाः आगृ ३, १०,  
११<sup>e</sup>.  
भिन्दु<sup>f</sup>- न्दवः वाधुश्री ३, ३७ :  
३; -ऋन्दुः आश्री ७, ८, ३; शांश्री  
१२, २६, २१; आपश्री १२, २०,  
११६; गौपि २, ४, ७; -न्दूनाम्  
हिश्री ९, ५, ३९<sup>f</sup>.  
भिन्दि > ण्दि-लव (ण >)णा-  
पाग २, १, ७२.  
भिन्न, न्ना- -न्नः या ९, १२; -न्नम्  
आश्री ३, ११, ६; १४, १०; शांश्री  
१३, १२, १३; काश्री २५, ५,  
२९; वैश्री २०, २८ : ३; शांश्री ५,  
८, ३; ४; आमिगृ २, ७, ९ : १२;  
मागृ ३, १८ : १६; वेज्यो २७;  
-न्नया विध ६३, ४७; -न्ना  
अप २२, ३, २; २३, ३, ५; नाशि  
२, ६, ७; -न्नाः अप ६८, १,  
४२; ७०<sup>g</sup>, १६, ३; -न्नानाम् अप  
७०, १, २; -न्नाम् वाश्री २, १,

६, ३; हिश्री ११, ५, २०; वौशु  
७; १; -न्नासु वौश्री २२, २ : ५;  
-न्ने वौश्री २०, २३ : २४××;  
वैश्री २०, २६ : ८; आमिगृ;  
-न्नेन गो १, २; या १४, ६;  
-न्नेषु वौश्री २९, १ : ३.  
भिन्न-कर्ण<sup>h</sup>- पा ६, ३, ११५.  
भिन्न-कार्पापण- -णम् वाध  
१९, ३७.  
भिन्न-काल- -लेषु आपश्री  
२४, १, ४३.  
भिन्न-काल<sup>i</sup>- -लस्य शांश्री १,  
३, ९.  
भिन्न-कृ(ण्ण >)ण्णा- -ण्णयोः  
काश्री १६, ७, २७.  
भिन्न-छिन्न-मल-वल्मीक-केश-  
कपाला(ल-अ)स्थि-तुपा(ष-अ)  
ङ्गारो(र-ऊ)षरे(र-ई)रिण-पाषा-  
ण-वृक्षमूलो(ल-उ)देश<sup>j</sup>-  
-शान् वैप ५, ३ : ५.  
भिन्न-तन्त्र<sup>k</sup>- -न्त्राः काश्री १५,  
१, २; १९, ६, १; -न्त्रान् काश्री  
२०, २, ६.  
भिन्न-ता- -ता कौशि ६०.  
भिन्न-देव(ता >)त<sup>l</sup>- -तान्  
वैश्री १७, १० : ७; -तानाम्  
वैश्री १७, १० : ११; १२; १६ :  
७; १८ : ५; ६.  
भिन्न-देश- -रोषु पावा १, १, ९.  
भिन्न-द्रव्य- -द्रुत- -तम् अप  
२३, ७, ३.  
भिन्न-पात्र- -त्रेण वैध २, १४,  
१५.  
भिन्नपात्र-भोजिन्- -जी वैध  
३, १५, ११.

a) कर्मणि कर्मकर्तारि च रूपम् । b) भिद्यते इति पाठः ? यनि शोधः (तु. Knauer.) । c) =कुडय- ।

d) कर्तारि शः प्र. उत्सं. (पा ३, २, १३८) । e) पाभे. वैप १ विद्वान्नाः शौ ६, ३२, ३ टि. द्र. । f) वैप १ द्र. ।

g) वैप १, २३३० ० द्र. । h) वस. । i) द्रस. > कस. ।

भिन्न-भाजन- न्ने विघ ६८, २०.

भिन्नभाजन-भिन्नभाण्ड-

भक्त<sup>३</sup> - क्तानाम् सुघ २६.

भिन्न-योनि<sup>०</sup> - ति: वौश्रौ २९, १२: १९.

भिन्न-विवाह- -हम् वौश्रौप्र १: ६.  
भिन्न-साधन<sup>०</sup> - ना: अप ६९, १, २.

भिन्न-सिक्त- -क्तानि आश्रौ ३, १०, २१.

भिन्न-स्वर<sup>०</sup> - रन् अप ३, २, ४; -रे अप ३, ३, १.

भिन्ना(न-अ)न्त<sup>०</sup> - न्तस्  
आपश्रौ १८, ८, १९; वाश्रौ ३, २, १, ८.

भिन्ना(न-आ)सन-गत- -तः  
विघ ६८, १८.

भिन्नो(न-उ)दात्ता (त्-अ)सुदा-  
त्त-क- -कौ याशि १, ८६.

भेत्तवै काश्रौ १८, २, ५.

भैभृत्- -त्ता शाश्रौ ८, १७, १; वौश्रु ३, ५, ११; -त्तारम् वौश्रौ ३, ९: १०; भाश्रौ ६, ३, ३; वौश्रु १, ४, ११.

भेद्- पाग ५, १, ६४; -द्: काश्रौ १, ७, ४; अप; -द्न् वौष २, ६, ११; -द्दा: अप ६८, ५, १६; वौश्रु ५: १८; चव्यू २: १; २; ४: १; दंवि २, १०; -दात् काश्रौ २०, ३, १७; -दान् अप ५८<sup>२</sup>, २, ३; वौष २, ६, ३०; वौश्रु ५: १८; -दे काश्रौ ७,

९, ११××; वौश्रौ २८, ११: ५; माश्रौ ३, १, २४; वैश्रु ६, १: १८; वृदे १, ४३; पावा ८, १, ५१; -डेन काश्रौ ८, ८, १०; २२, ३, २१; २५, ३, २६; ५, ३; -दौ वा ९, २१.

भेदिक- पा ५, १, ६४.

भेद-काम- -मा: आश्रौ २, ११, १३.

भेद-योजन- -नयो: अप ४८, १७.

भेद-व्यपदेश- -शात् मीसू १०, ६, ३४<sup>१</sup>.

भेदा(द-अ)भिवात्- -त: आज्यो ८, ४.

भेदा(द-अ)र्थ- -र्थम् मीसू ६, ४, १५.

भेदन्- -नम् काश्रौ १८, २, ६; २५, १२, २७; या ११, ३७; -नात्

या १, १४; -ने अप ५१, २, ४; ५, ५.

√भिन्द् पाघा. भ्वा. पर. अत्रयवे.

भिन्द्-, °न्द्- √भिद् द्र

भिन्द्व<sup>०</sup> - वा: वौश्रौप्र २५: २.

भिन्द्ान-, °न्द्- प्रन्. √भिद् द्र.

भिल्ल- पाठभो २, २, २४३; -ल्लम् वा १, २०.

भिल्ल- पाठभो २, ३, ९२.

भिल्लिभायन<sup>०</sup> - ना: वौश्रौप्र २४: २.

भिल्लु(क>)का<sup>१</sup> - -का (?काम्<sup>१</sup>)  
हिश्रौ १६, ६, ३९; ४०.

१भिवज्<sup>०</sup> - पाठ १, १३८; पाग ३, १, २७; -फक् आपश्रौ १६,

११, ११<sup>१</sup>; वैश्रौ १८, ९: १२; १०: १; ३; हिश्रौ; वा ६, ५;

-पज: फ्रापश्रौ ८, ७, २५; १६, ११, ११<sup>१</sup>; वौश्रौ; वृदे ७,

१५४; -फज्जा आपश्रौ १४, २९, १; कौश्रु १, १०, ६; वाश्रु १,

१६, ७; शुभ्रा ४, ३१; -फज्जाम्<sup>१</sup>  
अप १, ४१, ७; अशां ११, ७;

-पजौ वौश्रौ १४, २६: १४.  
भेपज<sup>०</sup> - पाठश्रु १, १३८; -फज्जम्

आश्रौ १, ११, १३; १०, ७, ३९<sup>१</sup>; ९, २<sup>२</sup>; वाश्रौ ३, ११,

३; १६, २, १९<sup>१</sup>××; काश्रौ;  
आपश्रौ ३, ११, २<sup>३</sup>; वौश्रौ १,

२१: १२<sup>४</sup>; भाश्रौ ३, १०, २<sup>५</sup>;  
वाश्रौ १, ३, ७, २०<sup>६</sup>; हिश्रौ २, ६,

१<sup>७</sup>; कौश्रु १, ५, २९<sup>८</sup>; आश्रु १,

५, २: १५<sup>९</sup>; कौश्रु ५, १३<sup>१०</sup>;  
१३<sup>११</sup>; १३<sup>१२</sup>; ३<sup>१३</sup>; ४<sup>१४</sup>; अप्राय

२, २<sup>१</sup>; अप ४८, ६४<sup>२०</sup>;  
७५<sup>२१</sup>; ६७, ७, ३<sup>२</sup>; ६९, ४,

३९; वाघ २६, १८९; शंघ ४९;  
वौष ४, ६, ७९; फनिघ १, १२<sup>२३</sup>;

३, ६<sup>२४</sup>; वा १०, ३५<sup>२५</sup>; आज्यो  
१०, ४९; -फज्जस्य आश्रु १,

१, १: ५१; ५, २: २; वौश्रु १,  
३, ३३; भाश्रु १, ५: ८; वाश्रु

१, २३; हिश्रु १, २, १८; अप १,  
८, ५९; -फजा आपश्रौ ८, ८, ७;

२१, २२, १; हिश्रौ १४, ४, ५७;  
या १०, ७; -जानाम् अप १८<sup>२</sup>,

५, २१; -फजेन वौश्रौ २७, ६:  
६; वैश्रौ २०, ३०: ५.

a) उप. = १भक्त-। b) वस.। c) उप. = वत्प्र-प्रान्त-। d) व्यपदेशात् इति कालं.। e) = कृपि-विशेष-। f) = नीति-विशेष-। g) पाठ: ? यनि. शोध: (त. लपा. आपश्रौ २१, २०, १; २ हिन्लुकाम् इति पाठे.)। h) वैप १ द्र.। i) पाठ: ? भिवज्जाम् लस्य > पजौ लस्य इति वा भैपजस्य इति वा संस्कृतु: टि.। j) = [भिवज्-प्रतिपादक-] मन्त्र- वा श्राद्धाण- वेत्ति भाष्यम्। k) पाठे. वैप १, २३३१ n द्र.। l) पाठे. वैप १, २३३२ i द्र.। m) = सुख-। n) = उदक-।

भेषजी- पा ४, १,  
३०.

१ भेषज<sup>१</sup>- ज्ञे अप ७०,  
१२, १.

१ भेषज्य<sup>२</sup>- पा ५, ४, २३;  
-ज्यः अप ३२, १, २४<sup>०</sup>; -ज्यम्  
कौसू २५, २; अप १, १०, ८;  
३३, १, ९<sup>०</sup>; ६, २<sup>०</sup>; वृदे ८,  
६४; अथ ७, ४५; आज्यो १०,  
३; -ज्यानाम् कौसू ३२, २६;  
-ज्यानि कौसू २५, १; या १०,  
७; ३५; -ज्याय वैताश्रौ ३८,  
१; -ऋज्येन<sup>३</sup> आपश्रौ १९, ९,  
१३; हिश्रौ २२, १, ५०; ऋश्रुअ  
२, ४०७.

भेषज्य-नाण- -णस्य  
अथभू १.

भेषज्या(ज्य-अ)भि-  
चार- -रयोः काश्रौ १५, ७, ३४.

भेषज्या(ज्य-आ)युर-  
धन्वन्तरि-द्वैवत- -तम् अथ २,  
३.

भेषज्या(ज्य-आ)युर-  
वनस्पति-द्वैवता-> ण्य-  
-त्यम् अथ २, ७.

भेषज्या(ज्य-आ)  
युज्य- -प्यम् अथ ८, ७.

भेषज्या(ज्य-आ)  
युस- -युः अथभू १; अथ ६,  
१०९.

भेषज्या(ज्य-अ)र्थ-  
-र्थे वौध २, १, २५.

भेषज-करण- -णम् वौध २,  
१, ४४.

भेषज-वनस्पति- -तिम्  
आमिग १, ६, ३ : ३.

भेषजा(ज-अ)र्थ- -र्थम् वाध  
२३, ९; वृदे ७, ९१.

भेष(ज>)जा-वत्- -वान्  
ऋप्रा ९, १११.

भिषक्-कर्मन्- -र्म अप १, १०, ८.

भिषक्-काम<sup>०</sup>- -मः अप १, ४५, ३.

भिषक्-क्रिया- -यायाम् सुधप  
८३ : २.

भिषक्-तम- -मः काश्रौसं ३६ :  
१२.

भिषग्-व(त् >)ती- -तीभिः  
आपश्रौ १६, ११, ११; वाश्रौ २,  
१, २, ३२, वैश्रौ १८, १० : ३.

✓भिषज्य पा ३, १, २७; भिष-  
ज्यन्ति शाश्रौ १६, १३, ३;

भिषज्यथः ऋप्रा ४, ९३१; भिषज्यतु  
आपश्रौ १४, २०, ७१; भिषज्यत  
आपश्रौ १४, २०, ७१;

वाधुश्रौ ४, ७९ : ३; अभिषज्यन्  
वाधुश्रौ ४, ७९ : ४; १०३ : २;

आमिग ३, ७, ३ : १९; वौषि २,  
२, १.

रभिषज् [L, ज]<sup>६</sup>- पाग ४, १, १०५;  
२, १११; -षक् ऋप्रा २, १०,  
९७; शुअ २, १२७; -षजः  
चाअ १६ : १८.

२ भेषज्य- पा ४, १, १०५.

२ भेषज- पा ४, २, १११.

रभिषणज्<sup>७</sup>- पाग ३, १, २७.

✓भिषणज्<sup>८</sup> अभीष्णात् आपश्रौ  
१९, २, १९१<sup>१</sup>.

✓भिषणज्य पा ३, १, २७.

रभिषणज्<sup>९</sup> (> भेषणज्य- [ > ज-  
पा.] पाग ४, १, १०५; २, १११.

✓भी<sup>१</sup> पाधा.जु. पर.भये, भयन्ते ऋप्रा  
७, ४५१; भयामसि<sup>२</sup> हिग १,  
१६, १७१; ऋभयामहे आपश्रौ  
७, ४, ४; शाश्रौ.

विभेति वाधुश्रौ २, ८ : २; सु  
१६, ५; वाध २७, ६; या १४,  
२६; विभीतः माग १, २, १३;

दंवि १, ४१; विभ्यति वाधुश्रौ  
३, १९ : १७; या १, २०; १०,  
११; विभेषि सु १४, ४; विभेषि  
वाधुश्रौ ३, ९ : १; ५; ९; १४;

आग ३, ११, ११; ऋविभीत<sup>१</sup>  
आश्रौ २, ५, १७; काश्रौ ४,  
१२, २१; आपश्रौ ६, २७, ३;

वैश्रौ २, १० : १८; हिश्रौ ६,  
७, ८; द्राश्रौ ७, ३, १; लाश्रौ  
३, ३, १; कौग ३, ४, ५;

शांग ३, ७, २; भाग १, २७ : २;  
हिग १, २९, १; विभीतन हिश्रौ  
६, ७, ८१<sup>१</sup>; माग; विभेतन काग  
२७, ३१<sup>१</sup>; विभ्यत कांग ३, ४,  
५<sup>२</sup>१<sup>३</sup>; ऋविभेत् वौश्रौ २, १७ :  
९; माशि १०३; अविभीताम्  
या १०, १०; अविभयुः वाधुश्रौ  
४, ४८ : ५; विभीयात् आपश्रौ  
३, १५, ७; १८, ९, १४; वौश्रौ;

a) स्तार्थे अण् प्र. । b) वैष १ द्र. । c) = गण-विशेष- । d) पामे. वैष १, २३३३ ० द्र. ।

e) पूष. = भेषज- । f) पाका. पाठः । g) = ऋपि-विशेष- । h) क्विन्तः नाधा. द्र. । i) पामे. वैष १,  
२३३४ १ द्र. । j) ऋप्रा १४, ४४ पा १, ३, ६८; ४, २५; ३, १, ३९; ६, १, ५६; १९२; ४, ११५; ७, ३, ४० परामृष्टः द्र. ।

k) पाठः ? भजामसि इति संस्कृतुः टि. (तु. Böht LZDMG ५२, ८४.) । सप्र. वौष २, ११ माग २, ३१ : १३  
दिशास्यहम् इति पामे. । l) पामे. वैष १, २३३४ h द्र. । m) सङ्कृत पामे. वैष १ वेपध्वम् मा ३, ४१ टि. द्र.

अन्यत्र पाठः ? मा ३, ४१ विभ्रतः इति पामे. ।

या ३, १६१; विभीथाः शांठ  
३, ८, ५१.  
‡विभाय आश्रौ २, १३, ७; या  
१०, १११; १४, २६; विभ्यतुः या  
८, १५१; विभय>या ऋप्रा ७,  
३३१; †मैषीः<sup>a</sup> आपमं २, १६,  
१४; गौष्ट ४, ९, १५; द्राष्ट ४,  
४, १; †मैः<sup>b</sup> माश्रौ १, ३, २,  
१२; २, ३, ३, ८; †मैः<sup>c</sup> काश्रौ २,  
५, २४; २, ४, १३; आपश्रौ  
२, १८, ९; १२, १०, २; वौश्रौ १,  
५ : ३; १२; १६ : १२; माश्रौ  
२, १७, ९; वैश्रौ ६, ८ : २;  
१५, ११ : १७; हिश्रौ २, २, २१;  
८, ३, ८; शुध १, ४२९; ङमैष्म  
ऋप्रा १४, ४४१; †मैम शांश्रौ  
१२, ३, २२; साश्र २, ९५५.  
‡विभः<sup>c</sup> माष्ट १, २, १३१.  
विभयां/कृ, विभयांचकार  
वाधूथौ ४, ३७ : ३.  
विभोवस्->विभ्युपी- पी या  
११, ४७.  
विभ्यत्- भ्यत् माश्रौ ५, २, ७,  
१; माष्ट २, १६, १; वृदे ४, ८९;  
-‡भ्यतः आपमं २, २२, १२;  
भाष्ट २, २० : ११; हिष्ट १, १६,  
५; -‡भ्यन्तः आपध २, १३, ६;  
वौध २, २, ३५; हिध २, २, ६.  
‡भय<sup>d</sup>- पावा ३, ३, ५६; -यः<sup>e</sup>  
अप ७०<sup>३</sup>, ११, २३; -यम्  
‡आश्रौ ४, ४, २; ६, ४,  
१०; शांश्रौ; अप १९, १, ८<sup>१</sup>;  
या ६, १२, ९, १९; १०, २१; २४;  
-यात् †शांश्रौ २, १४, २-४; १५,

२; ४; ५; आष्ट; -यानाम् या  
४, २१; -यानि वाधूथौ २, ८ :  
१; अप ७०<sup>३</sup>, ११, ८; १८; २०;  
-याय कौस् ५६, १३१; अप;  
-ये आपश्रौ १४, ३२, ५; हिश्रौ  
१५, ८, ३१; भाष्ट ३, १४ :  
२११; कौस्; गौध २३, २०<sup>१</sup>;  
-येन अप ५२, १, ५; पा २, १,  
३७; -येभ्यः कौष्ट ४, १, ४;  
विध ५०, २०; -यैः अप ४,  
६, २; ६९, ७, १.  
भय-कर- रम् अप ६४, ७, ७.  
भय-कारुण्य-हान<sup>b</sup>- नम् वाध  
१९, २.  
भय-कृत्- कृत् अप ७१, १७, ९.  
भय-कर- पा ३, २, ४३; -रः  
या ६, २५.  
भय-द<sup>१</sup>- दः या ६, ३२.  
भय-पीडित- ताः अप ५५,  
३, २.  
भय-प्रतीक<sup>१</sup>- काः या १०, २१.  
भय-भीत- तेन अप ४, १,  
२२; ६८, ५, १८.  
भय-वित्र(स्त)>स्ता- स्ताः  
सु ४, २.  
भय-वेपन- नयोः या ३, २१.  
भय-हेतु- तुः पा १, ४, २५.  
रभ(य>)या- या सु २४, २;  
-याम् सु २४, २.  
भया(य-आ)गम- मः अप  
५८<sup>२</sup>, ४, १६.  
भया(य-आ)ध्या(द्य-आ)दि-  
ग्रहण- णम् पावा १, १, ७२.  
भया(य-आ)तु(र>)रा- राः

सु ४, ३.  
भया(य-अ)न्वित- ताः अप  
७०<sup>३</sup>, १५, ३.  
भया(य-अ)भय- यम् अप  
५०, १, २.  
भया(य-आ)र्त्त, तौ- र्तः कौष्ट  
४, १, १; -र्त्स्य अशां १७, ५;  
-र्त्तं सु २, २; काष्ट ५६, १;  
माष्ट २, १७, १.  
भया(य-आ)वह, हा- हः अप  
२९, २, ४; -हम् अप ६४, ९, ६;  
७१, १६, ५; -हा अप ५८<sup>३</sup>,  
३, ५; -हाः अप ९, ४, १; -हात्  
अप ७०<sup>३</sup>, ७, ३.  
भये(य-ए)डक<sup>b</sup>- कः आपश्रौ  
१५, १९, ४; वौश्रौ ९, १८ : १३;  
माश्रौ ११, १९, १३; हिष्ट १,  
१७, १.  
भयो(य-उ)द्विष्ठा- प्रा वृदे ८,  
३५.  
भयमान- नः या ६, २१.  
भयानक- पाठ ३, ८२; पाग ३,  
४, ७४.  
भय्य- पा ६, १, ८३.  
भय्या(य्य-आ)दि-प्रकरण- णो  
पावा ६, १, ८२.  
भी<sup>d</sup>- भियः या ५, २८; भीः आपश्रौ  
१७, १४, ४; वैश्रौ; या ९, ३०१.  
१भीत, ता- तः आपश्रौ १३,  
७, ४; माश्रौ ३, ५, ९-१२;  
हिश्रौ; या ४, २; १०, ११;  
-तम् याशि १, २ ८; नाशि १,  
३, ११; -ता माश्रौ ३, २, ११;  
अप्राय २, ४१; शैशि १६५;

a) पाभे. वैप १, २३३४ i द्र. । b) पाभे. वैप १, २३३४ l द्र. । c) पाठः ? विभेः इति शोधः  
(तु. संस्कृतः टि.) । d) वैप १ द्र. । e) अर्धनादित्वं द्र. । f) उत्तरेण संधिरार्षः । g) अभये दत्ति पाठः ?  
(तु. माण्यम्) । h) द्रस. >पत्. । i) उप. <✓दा [दाने] । j) वत्. । k) नाप. ( [जातल-] भेप- ) ।  
मलो. कस. पररूपम् (पावा ६, १, ९३) ।

पाशि; -ता: सु २४, १; नाशि  
२, ८, २६.  
भीत-मत्तो(त-उ)न्मत्त-प्रमत्त-  
विसंनाह-स्त्री-बाल-वृद्ध-ब्राह्मण-  
-जै: वौध १, १०, ११.  
भीता (त-अ) वगीत-रुदिता (त-  
आ)कन्दिता(त-अ)वधुष्ट-श्रुधित-  
परिभुक्त-विस्मितो (त-उ) न्मत्ता  
(त-अ) वधूत-राजपुरोहिता (त-  
अ) ज्ञ-ज्ञानि शंघ २२९.  
भीम, मा<sup>३</sup>-पाठ १, १४८; पा<sup>३</sup>, पाग  
५, ३, १००<sup>०</sup>; पाग ३, ४, ७४;  
-०म विध १, ५१; -<sup>३</sup>मः  
आश्रौ २, १०, १४; ६, ३, १; शांश्रौ  
३, १, ३; १५, २५, १; आपश्रौ;  
या १, २००<sup>०</sup>xx; -<sup>३</sup>मम्  
आमिग्य २, ६, ३: १६; वौध २,  
५, २०; -<sup>३</sup>मस्य आमिग्य २,  
५, ८: २४; २९; ६, ३: २०;  
२३; वौग्य; -<sup>३</sup>मा वाश्रौ २,  
१, ८, १; अश्र १२, ५(३); -मा:  
पाग्य २, १७, १६<sup>३</sup>; -मानाम्  
विध ४३, ३७; -<sup>३</sup>माय आपमं  
२, १८, २०; आग्य.  
भीम-पराक्रम<sup>३</sup>-मे आज्यो ३,  
५; -मौ वृदे ४, ६७.  
भीम-बल<sup>३</sup>-ल: सु २७, १.  
भीम-रूप<sup>३</sup>-पा: अप ५२, १३,  
१.  
भीम-से(ना>)न<sup>३</sup>-नम् शांश्रौ  
१६, ९, ३.  
भैमसेनि<sup>३</sup>-ने: चाश्र  
७: २.

भीमसेना(न-अ)र्जुन<sup>३</sup>- पाग  
२, २, ३१.  
भीमा(म-अ)र्जुन<sup>३</sup>- पाग २, ४,  
१४.  
भीरु- पा ३, २, १७४; -रु: माग्य  
२, १४, २९<sup>३</sup>; -रुव: वैग्य १, १८:  
११<sup>३</sup>; -रुणाम् विध ९, २९.  
भैरव<sup>३</sup>-वम् अप ७०<sup>३</sup>, ६, ४  
भीरु-ता- ता वौश्रौ २, ५: ८<sup>३</sup>.  
भीरु-छान- पा ८, ३, ८१; पाग  
८, ३, ९८<sup>३</sup>.  
भीरुक- पाठ २, ३१; पावा ३, २,  
१७४.  
भीषण- -ण: अप ७०<sup>३</sup>, ३, ३; -णा:  
अप ५३, १, ४; -णाय अप ३६,  
९, १५<sup>३</sup>.  
भीषयमाण- -ण: सु २३, २.  
भीष्म- पाठ १, १४८; पाग ३, ४,  
७४; -ष्म: या १, २०.  
भीष्म-द्रोण<sup>३</sup>- पाग २, २, ३१<sup>३</sup>.  
<sup>३</sup>भीस<sup>३</sup>- भीषा आश्रौ ३, ११, १;  
शांश्रौ. ३, २०, २; १३, २, २-६;  
आपश्रौ.  
रभीत<sup>३</sup> (> भैतायनि- पा.) पाग  
४, १, १५४.  
<sup>३</sup>भुक्, ग<sup>३</sup> आश्रौ ८, ३, २२; शांश्रौ १२,  
२३, २; वैताश्रौ ३२, २३; वृदे  
१, ५५.  
भुग्न- ✓भुज् (कौटिल्ये) द्र.  
✓भुज्(वधा.) पाधा. रुधा. उभ. पालना-  
भ्यवहारयो: भोजते निध २,  
१२<sup>३</sup>.  
भुजे(म>)मा ऋप्रा ८, २८<sup>३</sup>.

मुहृक्ते काठश्रौ १३९; १५०;  
१५२; आमिग्य; <sup>३</sup>भुनक्ति वाध  
२, ११; वौध २, ३, १८; या २,  
४; मुज्जते आपश्रौ ५, २०, ३;  
६, १२, ३<sup>३</sup>; वौश्रौ; मुज्जन्ति  
विध ८१, २०; <sup>३</sup>भुनक्तु आपश्रौ  
१, १४, १२; भाश्रौ १, ११,  
१; जैग्य १, १४: २; <sup>३</sup>भुज्जताम्  
आमिग्य ३, ११, १: १४; वैग्य  
५, १३: २२; <sup>३</sup>भुङ्क्व आमिग्य  
३, ११, २: १४; ३: १८;  
वैग्य ७, ७: ४; मुज्जीत आपश्रौ  
१५, २०, १३; १४; काठश्रौ;  
मुज्जीयाताम् कौग्य १, १०,  
१४<sup>३</sup>; गोय १, ५, २७; ६, ४;  
द्राग्य; मुज्जीरम् आपश्रौ १०, १५,  
१६; भाश्रौ १०, ९, ६; वैश्रौ.  
भोक्ष्यते वाध १४, ९; भोक्ष्यामि  
कौग्य ३, १२, १६.  
<sup>३</sup>भुक्षिषीय आपश्रौ १०, १, ४;  
१३, १६, ८<sup>३</sup>; वौश्रौ; हिश्रौ १०,  
५, १२<sup>३</sup>; वभुक्षमहि पावा ३, २,  
१११.  
मुज्यते <sup>३</sup>आमिग्य ३, ११, १:  
१४; २: १४; आपध २, ४, २३;  
१८, ९<sup>३</sup>; वौध.  
?भोक्ष्यताम्<sup>३</sup> वैग्य ७, ८: २.  
भोजयति हिश्रौ २, ७, ६३; ३, ८,  
८६<sup>३</sup>xx; वैग्य; भोजयन्ति काग्य  
५२, ८; गोय २, १०, ६; भोजय  
पावा २, ४, ३२; भोजयत वौग्य  
१, २, ५८; माग्य २, २५: २; हिग्य  
१, १३, १५; भोजयेत् आश्रौ ३,

a) वैप १ द्र. । b) <भीम-क- । c) =कुन्तीपुत्र- (तु. पागम.) । d) वस. । e) व्यप. ।  
-वस. । f) तु. पागम. । g) पाभे. वैप १, २३२६ I द्र. । h) भवे वण् प्र. उस्. (पा ५, १, १३०) ।  
i) व्यप. । j) धा. क्रोधे वृत्तिः । k) सह भुज्जीयाताम् इति पाठस्य स्थाने सप्र. शांश्रौ १, १७, १ संपिदेयाताम्  
इति पाभे. । l) पाभे. वैप १, २३१७ i द्र. । m) सप्र. हिध २, ५, ६१ भोज्यते इति पाभे. । n) पाठः ३  
=भुङ्क्वम् इति C. ।

१४, १; काश्रौ छ, ६, ११; २३,  
४, २३; आपश्रौ; भोजयेयुः हिध  
२, १, ७३<sup>a</sup>.  
भोज्यते हिध २, ५, ६१<sup>b</sup>.  
बुमुक्षमाण- गः वाश्रौ १, ५, ५, १;  
गौध २४, ३.  
बुमुक्षा- पाग छ, ४, ६२; ५, २, ३६.  
बौमुक्ष- पा छ, ४, ६२.  
बुमुक्षा-पिपासा-गर्ध- -र्धेषु पा  
७, ४, ३४.  
बुमुक्षा-मार<sup>c</sup>- रम् अप ७२,  
४, ५.  
बुमुक्षित- पा ५, २, ३६; -तः  
सु १८, १; -ताय या ७, १३.  
मुक्त, क्त- -क्तम् आमिगृ १, ७, ३ :  
२; २, ६, २ : ६<sup>f</sup>; ३, १२, १ : ५;  
वैगृ; वैध १, ७, ६<sup>g</sup>; हिध १, ३,  
५२<sup>h</sup>; पा ५, २, ८५; -क्ता विध  
५, १८७; -क्ताः वाध २८, ५; या  
१४, ६<sup>f</sup>; -क्ते माश्रौ १, १, १,  
११; वैगृ ६, ५ : २; १९ : ७;  
विध ५९, १८; -क्तेन वाध ६,  
२९; -क्तेः अप ७०<sup>i</sup>, ७, १.  
मुक्त-भोग<sup>j</sup>- -गम् आमिगृ ३,  
८, १ : ७; वौपि १, १४ : ७;  
-गेन आमिगृ ३, ८, २ : ४८;  
वौपि १, १५ : ५५; हिपि १५ :  
२३; २५.  
मुक्त-यज्ञ- -ज्ञः वौश्रौ २८, ११;  
१४.  
मुक्त-विमुक्त- पावा २, १, ६०.  
मुक्ता(क्त-आ)धि<sup>k</sup>- -धिः गौध  
१२, २९.

मुक्ता(क्त-अ)नुमुक्त-दशवर्ष<sup>l</sup>-  
-र्षम् वाध १६, १७.  
मुक्तवत्- -वतः आमिगृ २, ३, ३ :  
२३; ३, १, २ : २२; आपगृ;  
-वताम् विध ८१, २१; -वति  
विध ९६, ६; -वत्सु आगृ छ, ७,  
२८; कौगृ ३, १४, ५; शांगृ छ, १,  
९; वौगृ; विध २१, ४××; -वद्भ्यः  
आमिगृ २, ४, ५ : २६; वौगृ १,  
२, ६१; आपध २, १८, १०; वौध;  
-वन्तम् आश्रौ ८, १४, ६; वैगृ  
२, ५ : १०; -वान् सु १५, ५;  
वौगृ १, १, २४; वाध छ, ३१;  
३२.  
मुक्तवती- -तीन् वौगृ १, १,  
२४.  
मुक्ति- -क्तिः हिश्रौ १६, ७, १८<sup>l</sup>;  
वाध १६, १०; विध ५, १८४;  
-क्तिसू<sup>m</sup> आपश्रौ १०, १, ४;  
वौश्रौ; -क्त्या विध ५, १८६.  
मुक्ति-दिन- -नेपु वेज्यो २६.  
मुक्त्या(क्ति-आ)वार- -रेण विध  
५, १८६.  
मुक्त्वा काश्रौ २५, ८, १५; आपश्रौ.  
मुक्त्वा-सुहित- पाग २, १, ७२.  
मुञ्<sup>n</sup>- मुजः आश्रौ ७, ४, ३;  
शाश्रौ; ऽवाध ११, ३७; १२, २३;  
मुजम् आपश्रौ १२, ७, १०; २१,  
२२, ६; हिश्रौ ८, २, ९; १६, ७,  
१८; मुजे आपश्रौ १६, ६, ६;  
माश्रौ ६, १, २, २५; वाश्रौ.  
मुजि- पाठ छ, १४२.  
मुजिध- पाठ छ, १७९.

भौजिध<sup>o</sup>- -प्यम् सु १९, १.  
भुज्यमान- -नः वौध २, ७, २०.  
भुज्यु<sup>p</sup>- पाठ ३, २१; -क्त्युः<sup>q</sup>  
आमिगृ १, ५, २ : ४३; वैगृ १,  
१८ : ४; -ज्युम् वृदे ७,  
१०६<sup>r</sup>.  
भुज्यवा(ज्यु-आ)दि- -दीनाम्  
पावा ७, १, १.  
मुजत्- -जतः जैगृ २, १ : ३१;  
अप छ२, २, ७; -जन् शाश्रौ  
१८, २०, ८.  
मुजती- -ती द्राश्रौ छ, ३, २१;  
लाश्रौ २, ७, १९; कौस् ६२, २१.  
मुजान, ना- -नः वैश्रौ १, १६ : ३;  
आमिगृ; -नम् शंघ २५४;  
आपध १, १६, ३३; हिध १, ५,  
३३; -ना वाध १७, ५५; २१,  
६; -नाः आपध २, १७, २१;  
२२; हिध २, ५, ४९; -नाम्  
आमिगृ ३, ३, २ : २०<sup>s</sup>; ११, ३ :  
१९; कागृ; -ने आमिगृ ३, ११,  
२ : १४; या ९, ३६; -नेपु कौगृ  
३, १४, ४; शांगृ छ, १, ८;  
आपध १, १७, ३; हिध १, ५,  
३५; -नौ आमिगृ १, ६, ३ :  
४४.  
भोक्त्य, व्या- -व्यम् आपश्रौ ५,  
२५, १५; आमिगृ २, ६, ७ : १६;  
वाध १४, १७; शंघ; -व्या  
आपध १, १९, ७; हिध १, ५,  
१०९.  
भोक्तुम् अप २०, ७, ११; आज्यो  
५, १२.

a) सपा. आपध २, ४, २० पूजयेयुः इति पाभे. । b) पाभे. पृ १८५९ m द्र. । c) विप. (जानपद-) ।  
बस. उप = मरण- । d) पृ १६०९ m द्र. । e) पाठः ? मुक्तम् इति शोधः (तु. आपध १, १०, २५ मुक्तम्  
इति पाभे.) । f) घस. । g) कस. उप. = निक्षेप- । h) उभयत्र तुप्पुर्णयः समासः (तु. मनुः ८, १४८) ।  
i) पाठः ? मुक्तिम् इति शोधः । j) पाभे. वैप २, ३ खं. मुक्तिम् तां १, १, १ टि. द्र. । k) वैप १ द्र. ।  
l) = दास्य- । प्यन् प्र. । m) वैप १, २३३८ c द्र. । n) व्यप. ।

भोक्तृ- क्ता वीगृ २, ११, ६६;  
कप्र २, ३, ६; वाध; -क्तुः गौपि  
२, ४, २; शंघ २२७; गौध १२,  
३४.  
भोक्ष्यत्- क्ष्यन् वैगृ ६, १७ : ८;  
१८ : ४.  
भोक्ष्यमाण- णः आपध १, १६,  
९; हिघ १, ५, ८; -णाः शाश्रौ  
१८, २४, १४.  
भोग<sup>a</sup>- पाग ६, १, १५६; -गः  
शाश्रौ १८, २०, ८; वाधूश्रौ;  
-गम् आगृ ४, ८, २६१; अप १,  
४४, ८; ६८, १, ५४; या ६, ८१;  
-गाः शाश्रौ १५, १७, ११; या  
४, १९; ५, ५; ८, ५; -गात्  
द्राश्रौ ५, ४, २५; लाश्रौ २, ८,  
२५; -गान् आपध १, २८, ७;  
अप; -गाय शाश्रौ १८, २०, ८;  
आपश्रौ; -गेन विध ५, १८५;  
-गैः या १०, २१.  
भोग-काम- -मः गोगृ ४, ५, २८;  
द्रागृ ४, १, १३.  
भोग-प्रत्यय- -ययोः पा ८, २,  
५८.  
भोग-लाभ- -भेन लाश्रौ ८, ६,  
१.  
भोग-वर्धन<sup>b</sup>- -नम् अप १, ४३,  
९; ४५, ७.  
भोगो(ग-उ)त्तरपद- -दात् पा  
५, १, ९.  
भोग्य<sup>c</sup>- न्यः अत्र १०, ११;  
-न्यम् वाधूश्रौ ४, २९ : १४;  
५९<sup>d</sup> : ४; -ग्याय वाश्रौ २, १,  
१, ५२१.  
भोज<sup>e</sup>- -जस्य वृदे १, ४८; ६,  
४२; या ७, ३१; -जाः वृदे

४, ९८; ८, २३.  
भोजक- -कः विध ५, ११५.  
भोजन<sup>f</sup>- -नम् आपश्रौ ६, २२, ११;  
१०, ६, १०; हिश्रौ; हिघ १,  
७, १४१<sup>g</sup>; निघ २, १०१<sup>g</sup>; -नस्य  
कप्र ३, १०, १०; मीसू ९, १, ६;  
-नात् गौध १६, ४३; -नानि  
वौश्रौ २८, २ : ४५१; वीगृ १, ३,  
३; या ४, ५१; ऋप्रा ७, २७१;  
-नाय सु १३, ४; वीगृ २, ११,  
६४; -ने आपश्रौ २२, ६, १७;  
हिश्रौ; पा ८, ३, ६९; -नेऽ-  
वाग्निगृ २, ६, ७ : ३४; -नेषु  
वौश्रौ २८, १३ : ४; वौध १,  
११, २७; -नैः विध ५१, ७७.  
भोजन-तन्निवृत्ति- -त्योः पावा  
३, १, २१०.  
भोजन-भक्षण- -णे काश्रौ ८, ४,  
२३.  
भोजन-वत् मीसू १०, ५, ५५.  
भोजन-विलम्बिन्- -म्बी माशि  
१५, ८; याशि २, १०२; नाशि  
२, ८, २४.  
भोजन-संवेशन- -ने द्राश्रौ ७,  
३, ९; लाश्रौ ३, ३, ११.  
भोजन-समय- -ये विध ७१,  
२५.  
भोजन-स्थान- -नेषु वौपि २,  
९, ११; भागृ ३, १६ : ३.  
भोजन-हविष्- -वीपि कौसू  
५२, १६; ५८, २४.  
भोजना(न-आ)चमन- -नयोः  
वौध २, ३, ५९.  
भोजना(न-आ)च्छादन- -ने जैगृ  
१, १७ : ४.  
भोजनाच्छादन-तत्पर- -रस्य

वाध १०, २०.  
भोजना(न-अ)दायिन्- -यिनः  
विध ५, ९५.  
भोजना(न-आ)दि- -दिषु पावा  
५, १, १९; -दौ वाध ६, ३४.  
भोजना (न-अ) ध्ययने (न-ई)  
प्सु- -प्सुः विध २२, ७५.  
भोजना(न-अ)न्त- -न्ते आम्रिगृ  
२, ४, ५ : २५; शंघ १४७.  
भोजना(न-अ)भ्यक्षन- -नात्  
वाध २, ३०; वौध २, १, ५२.  
भोजना(न-अ)र्थ-त्व- -त्वात्  
मीसू ९, ४, ३०.  
भोजनीय, या- -यम् हिघ २, ५,  
७५; -नीयाः आपश्रौ ९, ३, १२;  
भाश्रौ ९, ५, २; हिश्रौ १५, १,  
६०; वाध २, ११; या २, ४.  
भोजनीय-मृत्<sup>h</sup>- -त्ते काश्रौ  
२३, ४, २२.  
भोजयितव्य- -व्यः आपध २, १७,  
५; हिघ २, ५, ३४.  
भोजयित्वा काश्रौ २५, ८, १; लाश्रौ.  
भोज्य, ज्या<sup>i</sup>- -ज्यम् वैश्रौ ११, ११ :  
१२; आम्रिगृ २, ३, ३ : १७; कप्र  
२, ३, ६; शंघ १८३; ४६०;  
वौध १, ५, ५५; वैध २, १५,  
२; पा ७, ३, ६९; -ज्यस्य  
अप्राय ३, १०; -ज्याः शंघ २८;  
१९०; -ज्यानि अप ७०<sup>h</sup>, १६,  
५; -ज्याम् वाध १४, १६;  
आपध १, १९, १३; हिघ १, ५,  
११५; -ज्ये आपध २, ५, ५.  
भोज्या(ज्य-अ)न्न, ज्ञा<sup>i</sup>- -ज्ञाः  
विध ५७, १६; सुधप ८४ : ३;  
गौध १७, ६.  
भोज्यान्न-ता- -ता वीगृ २

a) वैप १ द्र. । b) उप. कर्तरि कृत् । c) पाभे. पृ २२ ० द्र. । d) = धन- । e) तु. पांसि. ।  
भोजने, तन्निवृत्तौ च इति पाका. । f) = अजीर्ण-मृत- इति कर्कविद्याधरौ । g) वस. ।

१, २१.

भोज्या(ज्य-अ)भोज्य- -ज्यम्  
वाध १४, १.

✓भुज् पाधा. तुदा. पर. कौटिल्ये.

भुज्<sup>अ</sup>- -अम् ऋप्रा २, ३१.

भुज<sup>ब</sup>- पा ७, ३, ६१; -जौ वैगृ १,  
२ : ११; २०.

भुज-ग- -नाम् शंघ ४२६.

भुजगे(ग-इ)न्द्र-राजी- -जी  
सु २८, १.

भुजं-ग- -गैः विध ४३, ३४.

भुजंगा(ग-आ)भोग-वेष्टित-  
-ताः विध ४३, ४३.

२भोग<sup>ए</sup>- -गाः वाधूथौ ४, ६४<sup>२</sup> :  
३; ५; -गान् सु ८, ३; -गैः  
आपथ्रौ २०, १६, १२; वाधूथौ  
४, ६४<sup>२</sup> : २; हिथ्रौ १४, ३, ३७;  
आथ्र ३, १२, ११; काथ्र ४९, १;  
वा ९, १५.

भोग-वत्- -वन्तः सु ९, १.

भुजि- प्रमृ. ✓भुज् द्र.

भुञ्जायन्<sup>ए</sup>- -ताः वौथ्रौप्र ४ : ३.

✓भुण्<sup>ए</sup> पाधा. भ्वा. आत्म. भरणे.

✓भुर् (वधा.)<sup>ए</sup> > भुरण- पाठभो  
२, २, १२६; पाग ३, १, २७.

✓भुरण्य पा ३, १, २७;

भुरण्यति निघ २, १४<sup>१</sup>.

भुरण्यत्- -ण्यन्तम् या  
१२, २२४; २३-२५.

भुरण्यु<sup>ए</sup>- -ण्युः अथ ४८,  
१०६; निघ २, १५; वा १२, २२<sup>३</sup>४;  
-ण्युम् वौथ्रौ १०, ३४ : ९.

भूर्णि<sup>ए</sup>- पाठ ४, ५२; -र्णयः  
आपथ्रौ १६, १८, ७; वैथ्रौ १८,  
१६ : ४; हिथ्रौ ११, ६, २९;  
अप्रा ३, ४, १; -र्णिम् आपथ्रौ  
५, १०, ४; माथ्रौ १, ५, २, १४;  
वाथ्रौ १, ४, २, ५; हिथ्रौ ३, ३,  
३६; या ६, २४.

भुरिज्(वप्रा.)<sup>ए</sup>- पाठ २, ७२; -रिक्  
शांथ्रौ ७, २७, २८<sup>४</sup>; अथ्र<sup>४</sup> १,  
३, १५; १७××; ऋप्रा<sup>४</sup> १६,  
१८; २०××; उनिस्<sup>४</sup> २ : ४;  
४ : २२; -रिजः निस् १, ६ :  
३××; वृदे ८, १०७<sup>४</sup>; अथ्र<sup>४</sup> २,  
२४; ३, २१××; -रिजोः शांथ्रौ  
१२, १५, ११<sup>१</sup>; -रिजौ अप ४८,  
८१<sup>१</sup>; अथ्र<sup>४</sup> २, २४; ३५××;  
निघ २, ४<sup>१</sup>.

भुरिक्-त्रिष्टुभ्- -ष्टुभः अथ्र १०,  
३; १४, २.

भुरिक्-सान्नय(त्री-अ)तुष्टुभ्-  
-ष्टुभौ अथ्र १२, ५ (५).

भुरिक्-स्वराज्- -राजौ उनिस् ५ :  
२३.

भुरिग्-वतिष्ठति- -तयः अथ्र १३,  
३.

भुरिग्-जगती- -त्यौ अथ्र ५, २४.

भुरिग्-वृहती- -त्यः अथ्र १९, १९.

भुरिग्-विष(म>)मा- -माः अथ्र  
२, १९.

भुलिङ्ग- पाठभो २, २, ६४.

भुच- ✓भू द्र.

भुवंग<sup>क</sup>- -गयोः वैगृ ३, ७ : १९; -गात्

वैगृ ३, १६ : १०; १३.

भुवत्- भुवन- ✓भू द्र.

भुवन्तु- पाठभो २, १, ७९.

भुवन्त्यु- पाठ ३, ५१.

भौवन्यव<sup>१</sup>- -वम् आपथ्रौ २०, ६,  
७; हिथ्रौ १४, २, १५; १८; -वे  
हिथ्रौ १४, २, १६.

भुवस्, भुविस- ✓भू द्र.

✓भू (वधा.)<sup>ए</sup> पाधा. भ्वा. पर. सत्ता-  
याम्, चुरा. आत्म. प्राप्नो, भवते  
अप ५१, ५, १; २; नाशि २, ५,  
७; भवति आथ्रौ २, १७, ५; ९,  
८, ३<sup>१</sup>; शांथ्रौ; वैथ्रौ १८, १६ :  
४१<sup>१</sup>; हिथ्र १, १६, १<sup>१</sup>; वौध  
३, ८, १०<sup>१</sup>; यारं ४, २९<sup>१</sup>; पावा  
१, १, ४४; २, १; भवतः आथ्रौ  
८, ६, १०; शांथ्रौ; आपमं  
१, ६, ८<sup>१</sup>; भवन्ति आथ्रौ  
१, ५, २; शांथ्रौ; आमिथ्र ३,  
५, ८ : ११<sup>१</sup>; ६, ४ : ८<sup>१</sup>;  
वैध १, ९, १४<sup>१</sup>; या ७, २३;  
पावा ३, २, १२३; ५, १, ११९;  
भुभवन्ति आथ्रौ १०, ९, २;  
शांथ्रौ १६, ६, १; आपथ्रौ ९,  
८, ६; वौथ्रौ; भवयः या ३,  
१५; भुभवय आपथ्रौ १०,  
१७, ११<sup>१</sup>; वौथ्रौ; आमिथ्र  
३, ७, १ : २२<sup>१</sup>; वा ११, १६;  
भुभवामि वौथ्रौ ४, ११ :  
१०; माथ्रौ; भवामः आपथ्रौ  
५, १, ७<sup>१</sup>; भुभवति आपथ्रौ  
२, २०, ६; आपमं २, ११, २९;

a) = संधि-विशेष- । b) = वाहु- । घा. अर्थः ? । c) वैप १ द्र. । d) = ऋपि-विशेष- । e) तु-  
BPG. । f) धा. गतौ वृत्तिः । g) विशेषः टि. द्र. । h) = छन्दस्- । i) वैप १, २३४० f द्र. । j) = वाहु- ।  
k) = देहली- इति भाष्यम् । l) = आख्यान- । तस्येदमीयः लण् प्र. । m) पा ३, २, १७९; ५, ४, ५०; ७, ४, ७३;  
८, ४, ३४ पावा ३, १, १२; ४० परानुष्टः द्र. । n) पाभे. वैप १, २३४० k द्र. । o) पाठः ? भवन्ति इति शोधः  
(तु. पृ ७७० d) । p) पृ १७९८ j द्र. । q) पाभे. वैप १, २३४० l द्र. । r) पाठः ? भवति इति शोधः  
(तु. वौपि १, ७ : १३; १३ : ८) । s) आद्रियन्ते इति नूतो. । t) पाभे. वैप १, २३४० a द्र. ।



वैपि १,८ : ५; ऋभवासि आश्री  
 ४, १०, ५; आपश्री; या ९,  
 ४; भवेताम् आपमं २, १९, १४<sup>०</sup>-  
 १६<sup>१</sup>; आगृ २, ६, ७; आमिगृ  
 २, १, ५ : ६<sup>०</sup>; ३, १, ३ : २४;  
 २८; ३२; भागृ २, १२ : १२;  
 १७; १३ : ४; हिगृ २, १३,  
 १<sup>३</sup>; ऋभवतु माश्री ६, १, ५, २२;  
 हिश्री; ऋभवताम् आश्री ८, १४,  
 १८; ऋभवन्तु आश्री २, १६, १४;  
 शाश्री; आपश्री ४, १५, ४<sup>०</sup>; ७,  
 १६, ७<sup>०</sup>; भाश्री ४, २१, २<sup>०</sup>;  
 वैताश्री १४, १<sup>०</sup>; मागृ २, १,  
 १३<sup>१</sup>; हिगृ २, ५, ३<sup>०</sup>; ऋभव, >  
 वा आश्री १, ४, ८; २, ९, १०<sup>०</sup>;  
 १२, २<sup>३</sup>; ५, ६, २६<sup>०</sup>; ८, १४,  
 १८<sup>३</sup>; शाश्री ३, ५, ९<sup>१</sup>; ४, ८,  
 १<sup>६</sup> × x; काश्री; आपश्री ८, १२,  
 ४<sup>१</sup>; लाश्री ५, ३, २<sup>१</sup>; वैताश्री  
 १९, १८<sup>०</sup>; आपमं १, १,  
 ४<sup>६</sup>; ३, १४<sup>२</sup> m; ५, १<sup>०</sup>; ६, ६<sup>३०</sup>;  
 २, २, २<sup>०</sup>; ७<sup>०</sup>; १५, १८<sup>०</sup>; आगृ  
 १, ७, ७<sup>०</sup>; १९<sup>२</sup> m; २, ३, ६<sup>०</sup>;  
 शागृ १, ७, ९<sup>०</sup>; १३, १<sup>०</sup>; १२<sup>०</sup>;

१४, ६<sup>०</sup>; २, १३, ५<sup>१</sup>; ३, ४, २<sup>०</sup>;  
 ८, ३<sup>०</sup>; पागृ १, ४, १६<sup>०</sup>; ७,  
 १<sup>०</sup>; मागृ १, १०, ६<sup>०</sup>; २२,  
 १२<sup>०</sup>; हिगृ १, ४, १<sup>०</sup>; १६,  
 १८<sup>०</sup>; २४, ५<sup>०</sup>; २५, १<sup>३</sup>; कौसू  
 ६८, ३१<sup>१</sup>; ७६, २४<sup>०</sup>; ऋभवतम्  
 आश्री ४, १२, २<sup>०</sup>; शाश्री; मागृ  
 १, १०, १६<sup>०</sup>; ऋभवत, > ता  
 आपश्री २, २०, ६<sup>०</sup>; वीश्री २,  
 ९ : १५; भाश्री २, १९, १<sup>०</sup>;  
 हिश्री २, ५, ४७<sup>०</sup>; द्राश्री;  
 या ८, १०<sup>०</sup>; भवानि सु १४,  
 ३; कौगृ २, २, ६<sup>०</sup>; ७,  
 १०; वौगृ १, ८, ३; हिगृ १,  
 ५, २<sup>०</sup>; भवाम् आपमं २, ५,  
 १७; भागृ १, ९ : १७; हिगृ १,  
 ७, १०; ऋभवत शाश्री ८. २०,  
 १; आपश्री; ऋभवताम् वीश्री  
 १८, ३५ : ३; ५० : ३१; ऋभवत  
 शाश्री १४, ३२, १; वीश्री; आमिगृ  
 ३, ८, ३ : ६<sup>०</sup>; वैपि १, १५ : ७७;  
 ऋभवः शाश्री १, १५, १२; वीश्री;  
 या ४, १४; ऋप्रा २, ४२; ऋत  
 ३, २, ८; ऋभवम् आपमं १, १६,

४<sup>०</sup> १<sup>०</sup>; भवेत् आश्री १, १०, ९;  
 वीश्री; भवेयाताम् ऋप्रा २, ४, ३; ३,  
 ९, ७; भवेताम् वैश्री ११, ८ : १०;  
 भवेयुः आश्री १०, ५, १; वैश्री  
 १५, ३१ : १०; जैश्री; भवेः सु  
 १८, ४; ऋभवेयम् आपश्री २०,  
 २५, ४; हिश्री १४, ६, १५.  
 भूत आपमं १, ७, २<sup>०</sup>; भूयाम,  
 ०मो(म-उ)काश्री २५, ५, २९<sup>०</sup> १<sup>०</sup>;  
 ऋप्रा ५, १८<sup>०</sup> १<sup>०</sup>.  
 वैभूयात् ०<sup>१</sup> वागृ १६, १<sup>०</sup>;  
 ऋभवयाः आपमं १, ११, २;  
 कागृ ३०, ३; मागृ १, १४, १६.  
 ऋभवयु शाश्री ४, १२, १०<sup>०</sup>;  
 आपश्री; माश्री १, ८, ४, ३६<sup>०</sup> १<sup>०</sup>;  
 आपमं २, २२, १९<sup>०</sup> १<sup>०</sup>; मागृ  
 २, ४, ५<sup>०</sup> १<sup>०</sup>; ऋवौध ३, ७, १०<sup>०</sup> १<sup>०</sup>;  
 १६<sup>०</sup> १<sup>०</sup>; या १, ५; २, ८; १०,  
 ४३<sup>०</sup> १<sup>०</sup>; १४, २; १०<sup>०</sup> १<sup>०</sup>; ऋभवतुः  
 वाधुश्री ४, ७५ : ३०; वृदे ४,  
 ११; या २, १०; ६, १३; वभूतुः  
 शाश्री १५, १७, १; वीश्री; या  
 १, ९; १२, ३८; ऋभवयु वीश्री  
 ४, ७ : १५<sup>०</sup> १<sup>०</sup>; कौसू ४५, ११<sup>०</sup> १<sup>०</sup>;

a) भव, ताम् इति पाठः? यनि. शोधः ( तु. आमिगृ ३, १, ३ : २४ प्रभृ.; वैतु. हरदत्तः द्वे एव पदे ) ।

b) पांमे. वैप १, २३४४ t द्र. । c) पांमे. वैप १, रमन्ताम् शौ ७, १२०, ४ टि. द्र. । d) पांमे. वैप २, ३३खं.

तैत्रा २, ५, ३, ३ टि. द्र. । e) पांमे. वैप १, २३४५ m द्र. । f) पांमे. वैप १, २३४८ a द्र. । g) पांमे.

वैप १, २३४६ e द्र. । h) पांमे. वैप १, २३४६ g द्र. । i) पांमे. वैप १, २३४७ l द्र. । j) पांमे. वैप १

युज मै ४, ११, ४ टि. द्र. । k) पांमे. वैप १, १२३७ k द्र. । l) पांमे. वैप १, २३४७ a द्र. ।

m) सकृत् पांमे. वैप २, ३३खं. ऋभूम तैत्रा ३, ७, ७, ११ टि. द्र. । n) पांमे. वैप २, ३३खं. भव सं १, २, १

टि. द्र. । o) पांमे. वैप १, २३४६ j द्र. । p) पांमे. वैप १, २३४६ b द्र. । q) पांमे.

वैप १, २३४६ m द्र. । r) पांमे. वैप १, २३६५ b द्र. । s) सकृत् पांमे. वैप १ विन्दस्व शौ ३,

२३, ४ टि. द्र. । t) पांमे. वैप १, २३४४ f द्र. । u) पांमे. वैप १, २३४४ t द्र. । v) पांमे. वैप १,

२३४४ ० द्र. । w) पांमे. वैप १, २३४८ b द्र. । x) पांमे. वैप २, ३३खं. जस्वानि माश ११, ५, ४, १

टि. द्र. । y) पांमे. वैप १, २३४९ k द्र. । z) ०वान् इति पाठः? यनि. शोधः ( तु. वैपि. तैत्रा ६, ९,

१ च ) । a<sup>१</sup>) पांमे. वैप १, २३५५ f द्र. । b<sup>१</sup>) पांमे. वैप २, ३३खं. भूयाम प १, ६ टि. द्र. । c<sup>१</sup>) पाठः?

०याः इति शोधः ( तु. आपमं. प्रभृ., ऋ १०, १८३, २ च ) । d<sup>१</sup>) पांमे. वैप १, २३५० p द्र. । e<sup>१</sup>) पांमे.

वैप १, १३४३ g द्र. । f<sup>१</sup>) पांमे. वैप १, ११३८ m द्र. । g<sup>१</sup>) पांमे. वैप १, २३४४ b द्र. ।

या ५, ८; ऋभूविद्य आपश्चौ  
 २२, १५, १३; हिश्रौ १७, ६,  
 २६; ऋभविष्यति आपश्चौ २,  
 १५, १; वौश्रौ; भविष्यतः छुस्  
 ३, १० : ६; भविष्यन्ति गोग्र  
 ४, २, १३; माशि ७४ः; मीस्  
 ३, ६, ४४<sup>५</sup>; भविष्यति वौश्रौ  
 २, १५ : १ः; शांश्रौ १, १९, ७४<sup>०</sup>;  
 अप ३३, १, ४; वृदे ४, ७८; अथ  
 ११, ३(२)ः; ऋभविष्यत शांश्रौ  
 १५, २७, १; काश्रौ २०, २, १७;  
 भविष्यामि वौश्रौ १३, १८ : १;  
 वाधुश्रौ ३, २० : २; हिश्रौ २२,  
 ३, ८; कौश्रौ ३, १२, १२; भवि-  
 ष्यावः वाधुश्रौ ४, ७५ : १८;  
 ऋभूयात् शांश्रौ २, १०, २;  
 काश्रौ; आपश्चौ १६, ६, ६;  
 वौश्रौ; वाश्रौ २, १, १, ५२<sup>२०</sup>;  
 वैश्रौ १८, ४ : ७<sup>०</sup>; कौस् १३६,  
 ३<sup>०</sup>; ऋभूयासुः<sup>०</sup> वौश्रौ २, ५ :  
 २९; वैश्रौ १६, २५ : १५;  
 आश्रित्य २, ६, २, ११; वौघ २, ५,  
 ५; ऋभूयाः आश्रौ १, ११, ६<sup>४०</sup>;  
 शांश्रौ ४, ११, ३<sup>२०</sup>; काश्रौ;  
 आपमं २, ३, २५<sup>१</sup>; हिश्रौ २,  
 ४, २<sup>६</sup>; ऋभूयास्तम्<sup>५</sup> आपश्चौ  
 २, १३, ३; माश्रौ २, १३, ३;  
 हिश्रौ २, १, १७; ऋभूयास्त  
 वौश्रौ ३, ८ : २३; माश्रौ ६,

२, ५; माश्रौ २, ३, ७, ३; गो  
 २, २; ऋभूयास्य<sup>१</sup> शांश्रौ ४,  
 ५, १; वाश्रौ १, २, ३, २९; हिश्रौ  
 १, १८, ३; ऋभूयासम् आश्रौ ३,  
 १, १४; ५, २, ८; शांश्रौ २, १३,  
 २; १०, ३, १०<sup>०</sup>; ४, १२<sup>६</sup>;  
 काश्रौ ४, ४, २२; आपश्चौ २, ५,  
 ९; ४, १३, २<sup>३</sup>; ३<sup>५</sup>; १४, ४<sup>३</sup>;  
 ६, १९, ७<sup>१</sup>; २१, १२, ५<sup>१</sup>; वौश्रौ  
 १, १२ : ३०; माश्रौ १, ९,  
 १०; माश्रौ १, ४, १, २७<sup>३</sup>;  
 २, १<sup>२</sup>; ३; ५; ६<sup>६</sup>; ६, १, २,  
 २५<sup>०</sup>; वाश्रौ १, १, ३, १<sup>३</sup>;  
 २<sup>२</sup>; ४; ५<sup>३</sup>; ६<sup>३</sup>; ४, १<sup>३</sup>; २, ३,  
 २९; वैश्रौ २, ८ : ११<sup>१</sup>; हिश्रौ  
 १, ७, २१; ६, ४, १<sup>१</sup>; ४२<sup>१</sup>;  
 जैश्रौ २ : ९; आपमं २, ६,  
 १<sup>१</sup>; ११<sup>०</sup>; ९, १४<sup>३</sup>; हिश्रौ १, ५,  
 १३<sup>१</sup>; १३, ४<sup>३</sup>; कौस् ६, १०;  
 ऋभूयासम् आश्रौ ३, १४, १२<sup>०</sup>;  
 शांश्रौ ४, ५, १; आपश्चौ ३, २०,  
 ९<sup>०</sup>; ४, १३, ७<sup>०</sup>; ६, २५, १०<sup>०</sup>;  
 वौश्रौ ४, ६ : ४६; माश्रौ १, १,  
 २, २४; वाश्रौ १, २, ३, २६;  
 हिश्रौ ६, ६, १६<sup>१</sup>; द्राश्रौ ४, १,  
 ८<sup>३</sup>; लाश्रौ २, १, ७<sup>३</sup>; आपमं २,  
 १५, १७<sup>०</sup>; कौस् ९२, २५<sup>१</sup>; वौघ  
 १, ४, ७<sup>०</sup>; भुवत् आपश्चौ ५, १२,  
 १<sup>१</sup>; वौश्रौ २, १७ : ४०<sup>१</sup>;

वैश्रौ १९, ६ : ४; हिश्रौ ३, ४,  
 १२<sup>१</sup>; द्राश्रौ ६, २, १८; लाश्रौ  
 २, १०, १८<sup>२</sup>; वृदे ३, ७९<sup>१</sup>;  
 ऋभूयात् आश्रौ १, ९, १; शांश्रौ;  
 ऋभूयात् वौश्रौ १७, ५० : ११;  
 या ५, ८<sup>१</sup>; कौस् ८३, ५<sup>१</sup>; ऋभू-  
 यात् आपश्चौ २, ८, ६; वौश्रौ  
 २४, २९ : १६; भाश्रौ २, ८, ७;  
 हिश्रौ २, ५, ११; भाश्रौ २, ४ :  
 १०; या ७, २९; ऋभूयात् शांश्रौ  
 १२, ५, १३; ऋभूयात् वौश्रौ  
 १०, ५६ : ९; भूयात् या १०, ५;  
 ऋभूयात् आश्रौ १, ६, १; शांश्रौ;  
 ऋभूयात् : आश्रौ १, ८, १; शांश्रौ  
 १०, ६, १६; लाश्रौ; आपमं २, २,  
 ८<sup>१</sup>; आश्रित्य १, ५, १ : २५<sup>१</sup>;  
 काश्रौ ४१, ७<sup>१</sup>; वौघ २, ५,  
 १२<sup>१</sup>; भाश्रौ १, ६ : २<sup>१</sup>; हिश्रौ  
 १, ४, ३<sup>१</sup>; ६, ३<sup>१</sup>; ऋभूयात् शांश्रौ  
 १, १३, ४; काश्रौ ६, ५,  
 २५; १०, ८, १५; ऋभूयात्  
 आपमं १, ७, ११; ऋभूयात्  
 आश्रौ ३, ८, १; वौश्रौ ६, २४ :  
 ३४; ऋभूयात् या ६, १६<sup>१</sup>; भूयात्  
 या ६, २२<sup>१</sup>; ऋभूयात् आश्रौ ६,  
 ४, १०; शांश्रौ ९, ११, ३; वृदे  
 ७, ५७; ऋभूयात् आपश्चौ १०,  
 ९, ४; वौश्रौ २४, १८ : २; हिश्रौ  
 १०, २, ७; ऋभूयात् आपमं १, ३,

a) तु. जीसं. । b) पामे. वैप १, २३४४ k द्र. । c) पामे. वैप १, २३५१ ० द्र. । d) पामे. वैप  
 १, २३५१ ण द्र. । e) पामे. वैप १, २३४५ i द्र. । f) पामे. वैप १, २३५२ ० द्र. । g) पाठः ? (छन्दस्तः)  
 भूयास्तवम् इति द्विपदः शोषः इति Böht (ZDMG ५२, ८६) । h) पामे. वैप १, २३५२ d द्र. । i) पाठः ?  
 भूयास्त इति शोषः इति संस्कृतः टि., C. (शांश्रौ.) च; भूयासम् इति Old. । j) पामे. वैप १, ११४५ q द्र. ।  
 k) पामे. वैप १, ११४५ r द्र. । l) पामे. पृ १५५० e द्र. । m) पामे. पृ ४४७ x द्र. । n) पामे.  
 वैप १, २३५२ q द्र. । o) पामे. वैप १ वर्धियीनहि मा २, १४ टि. द्र. । p) पामे. वैप २, ३३३ भूयाम प १,  
 ६ टि. द्र. । q) पामे. वैप १, २३५२ u द्र. । r) पामे. वैप १, २३५२ f द्र. । s) पामे. वैप १, २३४६ p द्र. ।  
 t) पामे. वैप १, १७९१ k द्र. । u) पामे. वैप २, ३३३. भूयात् माश्रौ १३, ८, १, ४ टि. द्र. । v) पामे. वैप १, २३४६  
 b द्र. । w) पामे. पृ ४४६ n द्र. ।

१४<sup>2a</sup>; आग्निष्ट १, ५, ४: ४५<sup>b</sup>;  
 भाग १, १७, ६<sup>b</sup>; हिग्य १, २१,  
 २<sup>b</sup>; ऋभूम आश्रौ ५, ६, २६;  
 काश्रौ १०, ९, ८; आपश्रौ ९, ३,  
 २२; १०, २३, १<sup>b</sup>; वौश्रौ; वौग्य  
 १, १, २९<sup>b</sup>; ऋभूम वैताश्रौ ४०,  
 ७<sup>o</sup>; ४१, १२<sup>d</sup>; ऋप्रा ८, १७;  
 अमविष्यत् वाधुश्रौ ४, ९९ : ८;  
 लाश्रौ ८, ४, ६; निसू २, ९ : २९;  
 या ६, २८; अमविष्यन् या ७,  
 २३.  
 भाव्यन्ते कप्र १, ९, ३.  
 बुभूषत् आपश्रौ २, १९, ४;  
 ६, ४, १; वौश्रौ ३, ४ : १९;  
 भाश्रौ ६, ९, १; हिश्रौ ३, ७, १९;  
 निसू ४, ३ : ५.  
 बोभवीति या १०, १७<sup>†</sup>;  
 बोभूत् पा ७, ४, ६५.  
 वभूव > वभूव-पैतृक-यच्छा (च्छ-  
 अ)न्त-न्ते वैग्य १, १८: १५.  
 वभूवस्-वान् शाश्रौ ८, १७, १<sup>†</sup>.  
 ऋभूवुषी-षी या ११, ४०;  
 दंवि २, ११.  
 बुभूषत्-पत्: आश्रौ १०, १, ५;  
 शाश्रौ; -पत्ता आपश्रौ १२, ८,  
 १२; वाश्रौ ३, २, ५, १८; अप  
 ४, १, २२; -पन् आश्रौ १०,  
 ३, १२; आपश्रौ २, १९, १४;  
 १२, १९, ३; २२, १३, १७; २२;  
 माश्रौ १, २, १, ३३; वैश्रौ १५,

२२ : १४; हिश्रौ ८, ५, २२; १७,  
 ५, ३६; -पन्त: आश्रौ १०, ५,  
 १२; ११, ६, ८.  
 बुभूषद्-यज्ञ-ज्ञ: निसू ८,  
 २ : १; ५.  
 बुभूषु-घु: काश्रौ १८, ५, १०.  
 इभव-पावा ३, १, १४३<sup>†</sup>; -व:  
 पा ४, ३, ५३; पावा १, ३, १०;  
 -वा: या १२, ४३; -वे पा ४,  
 ४, ११०; पापवा १३; पावा ४,  
 २, ३४<sup>३</sup>; ३, ६६; ५, १, ९४;  
 -वेऽवे अप २०, ६, १<sup>†</sup>.  
 भव-वत् पा ४, २, ३४; ५, १, ९६.  
 भव-व्याख्यान-नयो: पावा  
 ४, ३, ६६.  
 भवा (व-अ) र्थ-र्थम् पावा ४,  
 ३, ६६.  
 रभवत्-वत् वृदे १, ६१<sup>†</sup>; कौसू  
 ९२, १३<sup>†</sup>; या १४, १०<sup>†</sup>;  
 -वत् सु ३०, २; आग्निष्ट ३, ८,  
 २ : ४४<sup>†</sup>; वौषि १, १५:  
 ५१<sup>†</sup>; ऋप्रा २, ३७; -वन्तम्  
 वाधुश्रौ ४, २८<sup>३</sup> : ५; छसू ३,  
 १६ : ७.  
 ऋभवन्ती-न्ती या २, ९;  
 पावा ३, २, १२३<sup>†</sup>; -न्ती:  
 आपश्रौ १, ११, १०; १२, ११;  
 १४; वौश्रौ १, ३ : १६; भाश्रौ  
 १, १२, ३; ६; माश्रौ १, १, ३, ७;  
 १७; हिश्रौ १, ३, १९; ३४;

-न्तीम् वाधुश्रौ ४, २८<sup>३</sup> : ७.  
 भवन्ती-पर-र: पावा  
 २, ३, १.  
 भवन्त्य (न्ती-अ) र्थ-र्थ  
 पावा ३, २, १०२; ३, १३३.  
 भवद्-वसु-सु: अश्र १३,  
 ४ (६) <sup>†</sup>.  
 भवन-पाउभरे २, २, १८९; पाग  
 २, ४, ३१; -नम् अप २४, ६,  
 ४; -नात् या ४, ५; पा, पावा ४,  
 १, ८७; -नानि अप ६८, १,  
 ३५; -नाय वैग्य ५, २ : २९<sup>†</sup>;  
 -ने पा ५, २, १; पावा ५, २,  
 २९<sup>†</sup>; -नेषु अप ७०, ५, २.  
 भवन-चर-रान् अप ६८, ३,  
 ११.  
 भवन्ति-पाउ ३, ५०.  
 भवितव्य-व्यम् आपश्रौ २१, १,  
 १३; हिश्रौ १६, १, ३९; आग्निष्ट  
 ३, ३, १ : ९; ११; अप ३०<sup>३</sup>,  
 १, २; विध ३१, ३.  
 भवितुम् विध ९८, २; वृदे ५, ५९.  
 भवितोस्(:) वौश्रौ १३, १७: ६<sup>†</sup>.  
 भविल-पाउ १, ५४.  
 भविव्य-व्यम् वृदे १, ४०;  
 -प्याणाम् विध २०, २०.  
 भविष्यत्-प्यत् शाश्रौ ८, २१,  
 ३<sup>†</sup>; आपश्रौ; अप ४८, ७५<sup>†</sup>;  
 निघ १, १२<sup>†</sup>; या १४, १०;  
 ११<sup>†</sup>; -प्यता मीसू ४, १, २६;

a) सप्तपदा वभूव इति पाठः ? सप्तपदाव(दो,अ)भूव इति शोधः (तु. पाभे.) । b) पाभे. वैप २, ३४<sup>†</sup>.  
 वभूम तैत्रा ३, ७, ७, ११ टि. द्र. । c) आन. पाठः? (तु. a टि.) । d) पाभे. वैप १, २३५५ j द्र. ।  
 e) धा. दीप्ती वृत्तिः । f) = मन्त्र-त्रय- (तु. तैसं ३, ४, ४, १; ५, १; ७, ३) । g) = सर्वस्तोम-  
 (अतिरात्र- [तां २०, २, २]) । h) तु. पाका. । i) = वर्तमान-काल- । j) सपा. भवत् <>  
 भविष्यत् इति पाभे. । k) भव इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सप्र. शौ १८, ४, ५२ आग्निष्ट.) । l) = लट्  
 लकार- । m) वैप १ द्र. । n) नाप. (गृह- [अप. या ४, ५ प्रम.] , [ देवता-विशेष- ] रुद्र- [ वैग्य. ] ), व्यप.  
 (द्वादशभृगूणामन्यतम- [शंघ-]) । गृहेऽर्थे अधिकरणे ल्युट्, अन्यत्र कर्तरि ल्युः प्र. । o) विप., नाप. (काल-विशेष-)  
 नैप्र. < भविष्यत्- इति शक. । p) उदक-नामन्- ।

-ण्यति आश्रौ १, २, १; पा ३, ३, ३; १३६; पावा; -कँप्यते शाश्रौ ६, २, २; आपश्रौ २०, १, १७x; वौश्रौ.

भविष्यन्ती-न्त्याम् वैश्रौ १, १७: १५.

भविष्यन्त्य(न्ती-अ)र्थ-र्थे पावा ३, ३, १५.

भविष्यत्-पुराण-णे आपघ २, २४, ६; हिघ २, ५, १७१.

भविष्यत्-प्रतिषेध-धात् पावा ३, ३, १३३.

भविष्यद्-अधिकार-रे पावा ३, ३, १५६.

भविष्यद्-आधमर्ष्य-र्ष्ययोः पा २, ३, ७०.

भव्य,व्या<sup>१</sup>- पा ३, ४, ६८; -व्यः सु ३०, २; -कँप्यम् आपश्रौ १६, ३३, १; २०, ११, ८; वौश्रौ १५, १८: १५; ३२: ५; ३६: १२;

वाश्रौ १२, १, ३०; वैश्रौ १८, १६: ६६; आपमं २, ५, २२; वौगृ २, ५, २६; भागृ २, २७: ९;

हिगृ १, १३, १९; कौसू १०१, २; १३५, ९; वृदे १, ४०९; -कँप्यस्य आश्रौ ८, १०, ३;

शाश्रौ ३, ५, ८; मागृ १, १०, १५; वृदे १, ६१९<sup>०</sup>;

-कँप्या<sup>१</sup> आमिगृ २, ६, ६: २९; हिगृ १, १३, १२; गो १, ३३; २, १२; हिघ १, ८, ३०; -कँप्याय

आपश्रौ २०, ५, ९; वौश्रौ १५, ७: १६; हिश्रौ १४, १, ४५; या १०, ४२<sup>०</sup>;

-कँप्ये आपश्रौ ९, १४, २<sup>०</sup>; आपमं २, १८, ५<sup>०</sup>;

वौगृ ४, ४, ७<sup>०</sup>; भागृ २, २: १६<sup>०</sup>; पा ५, ३, १०४९.

भव्या(व्य-आ)दि-दीनाम् पावा २, ३, ७१.

भव्याद्य(दि-अ)र्थ-र्थम् पावा ३, ४, ६७.

भव्या(व्य-अ)पत्य<sup>१</sup>-त्यः हिघ २, ५, १२.

भाव<sup>१</sup>- पा ३, ३, २४; पाग ५, २, ९५; पावा ३, १, १४३; -वः काश्रौ ४, ३, २४; द्राश्रौ ७, ४, २७; लाश्रौ; शंघ ३३३<sup>१</sup>; वृदे ४, ७३<sup>१</sup>;

या १, १३; पा ५, १, ११९; पावा १, १, ५६; ५७x; मीसू ६, ४, ३३<sup>१</sup>; -वम् माश्रौ ३, ५, २; वृदे ४, ५९<sup>१</sup>; ६८; ६, ३८; अपं २: १; या १, १; ऋप्रा १२, १९; -वस्य वृदे १, ३०; या १, १; ७, ३; पावा ४, १, ३; -वाः अप ६१, १, २०; पावा ५, १, ११९; -वात् वृदे १, ३१; ८, २१; या १, १३; १४<sup>२</sup>; या ७, ३; पावा; -वाय आमिगृ २, ४, ८: २४; अप ५२, ११, ३; या ७, २८; -वे पागृ २, १७, ९; गोगृ १, ७, १७; वाध ५, ३; वौघ २, २, ४६; पा ३, १, १०७; ३, १८x; -वेन पा २, ३, ३७; पावा ५, १, ११९; आज्यो १२, ७<sup>१</sup>; -वैः या १, १२; आज्यो १४, ४<sup>१</sup>.

भाव-वः पावा १, १, १९; ६, १, १x; -वस्य पावा ३, १, ३६; ६, ४, ६२; -वात् पावा ८, ३, १३; -वे पावा १, १, २७x; -वेभ्यः पावा ७, १, ९६.

भाव-वचन-नम् पावा ५, ३, ६६; ६, १, १; -नात् पावा ६, १, ६५.

भावा(व-अ)र्थ-र्थम् पावा ३, २, १०९; ६, ४, ५२.

भाव-करण-णयोः पा ६, ४, २७; ८, ४, १०.

भाव-कर्मकर्तृ-तारः पावा ३, १, ६७.

भाव-कर्मन्-संगोः पा १, ३, १३; ३, १, ६६; ६, ४, ६२; पावा ३, १, ६७.

भावाकर्म-निवृत्त्य (ति-अ)र्थ-र्थम् पावा १, ३, १४.

भावाकर्म-वचन-नः पा ६, २, १५०.

भाव-क्षय<sup>१</sup>-यात् अप ५८<sup>१</sup>, १, ५.

भाव-गर्हा-र्हायान् पा ३, १, २४.

भाव-ग्रहण-णम् पावा ३, ३, ४४.

भाव<sup>१</sup>-दुष्ट-ष्टम् वाध १४, २८; विघ ६८, ४९; गौघ १७, ११.

भाव<sup>१</sup>-दूषित-ने विघ ६८, ४९.

?भाव-प्रत्यय-ये निवृ ३, १०: ४६<sup>१</sup>.

a) = लडलकार-। b) वैप १ द.। c) = भविष्यत्-काल-। d) पाभे. पृ १३६१ b द.। e) पाभे. वैप १, २०५७ e द.। f) वस.। g) भावे कर्तरि च कृत्। h) = अभिप्राय-। i) = (सत्र-)

श्रुत-। j) उप. < ✓क्षि [क्षये]। k) अर्थः ?। भागप्रत्यवाये इति संत्कर्तुः टि.।

भावप्रत्यया ( य-अ )न्त-  
 -न्तात् पावा ४, ४, २०.  
 भाव-प्रधान<sup>a</sup>- नम् वृदे २,  
 १२१; या १, १; -ने या १, १.  
 भाव-प्रवृत्ति- -तौ पावा २,  
 ३, ३७.  
 भाव-युक्त-त्व- -त्वात् पावा ४,  
 १, ३.  
 भाव-लक्षण- -णम् पा २,  
 ३, ३७; -णे पावा २, ३, ३७.  
 रभाव-लक्षण<sup>b</sup>- -णे पा ३, ४,  
 १६.  
 भाव-वचन<sup>b</sup>- -नः पावा ५, १,  
 ११९; -नाः पा ३, ३, ११;  
 -नात् पा २, ३, १५; -नानाम्  
 पा २, ३, ५४; पावा ३, ३, ११;  
 -ने पावा १, ३, १; २, २, ६.  
 भाववचन-त्व- -त्वम् पावा  
 १, ३, ११.  
 भाव-वत्- पा ५, २, ९५.  
 भाव-विकार- -राः या १, २; ३.  
 भावविकार-ज- -जाः वृदे  
 २, १२२.  
 भाव-वृत्त<sup>c</sup>- -त्तम् ऋञ् २, १०,  
 १२९; १५४; १९०; वृदे २,  
 १२०<sup>d</sup>; ५, ८७; ११२; ७,  
 १२३×४; -त्तानि वृदे २, ८६<sup>d</sup>;  
 भाववृत्ति<sup>e</sup>- -त्ती साअ १,  
 ६०३.  
 भाव-वृत्ति<sup>d</sup>- -त्तिः वृदे ७,  
 १३५.  
 भावा( व-अ )दिकर्मन्- -र्मणोः

पा १, २, २१; ७, २, १७.  
 भावा( व-अ )भाव- -वयोः  
 पावा १, ३, ९; -वौ अप ५९,  
 १, ३.  
 भावा ( व-आ ) रम्भ-वचन-  
 -नात् पावा २, ३, ३७.  
 भावा( व-अ )र्थ- -र्थाः मीसू  
 २, १, १.  
 भावा( व-अ ) विराम-भावि-  
 त्व- -त्वात् पावा १, ४, ११०.  
 भावैव<sup>f</sup> अप ७०, ६, ४.  
 भावन<sup>g</sup>- -नम् शंघ ११६ : ५५;  
 -नाय या ७, २५, -ने अप  
 ४८, ५१.  
 भावना<sup>h</sup>- -नाः विध ६, २३.  
 भावयत्- -यन् कौसू १३५, ९१.  
 भावयित्वा नाशि १, ४, १०.  
 भावि( त> )ता- -ताम् वौश्रौ  
 ९, १ : ३; २ : ९; १०, १ : २.  
 रभाविन्- पाउ ४, ८; पाग ३, ३, ३;  
 आपध २, २८, १; हिध २, ६, १.  
 भाविनी- -नि विध ९६, ९८;  
 -नी विध १, ३१.  
 भाविन्- -विनाम् पावा ६,  
 ३, ६१<sup>i</sup>.  
 रभायुक्- पा ३, २, १५४.  
 रभाव्य- पा ३, १, १२३; -व्यम्  
 कप्र १, १, ४; विध २८, ४१;  
 पावा १, २, ९<sup>j</sup>.  
 ऋभुव<sup>k</sup>- -वः आपश्रौ<sup>k</sup> १६, ३२, १;  
 २०, १९, १२; २१, १३, ९;  
 वौश्रौ<sup>k</sup> १०, ३५ : ४; १४,

२२ : ९; वौश्रौ<sup>k</sup> १८, २० : ५८;  
 हिश्रौ<sup>k</sup> ११, ८, ५; १४, ४, ३९;  
 १६, २, १०; कौसू १२८, ४;  
 -वाय कौसू ११६, २; अप्राय  
 २, ६.  
 भौवायन<sup>l</sup>- -नः वौश्रौ १०,  
 ३५ : ४; १४, २२ : ९; शुअ  
 ४, १९१.  
 ऋभुव-पति<sup>m</sup>- -तये<sup>n</sup> काश्रौ २५,  
 २, २६; शुअ १, १००.  
 भुवत्<sup>o</sup>- -वत् वाधूश्रौ ४, ९८ : ५<sup>m</sup>;  
 -वतः हिश्रौ १७, ८, ३२<sup>n</sup>.  
 भुवद्-वत्- -वद्भ्यः आश्रौ ४,  
 २, ५; वौश्रौ.  
 भुवन( वप्रा. )<sup>o</sup> पाउ २, ८०; -नः<sup>o</sup>  
 अप ४३, ५, १५; ऋञ् २, १०,  
 १५७; शुअ ३, ५५; साअ १;  
 ४५२; -ऋनम् आश्रौ २, १३,  
 ७×४; शांश्रौ; आपश्रौ १९, ३,  
 ५<sup>p</sup>; हिश्रौ १३, ८, ३०<sup>p</sup>; सु  
 ३०, २; शंघ ११६ : ५५<sup>p</sup>;  
 अप ४८, ७५<sup>r</sup>; निध १, १२<sup>r</sup>;  
 या १३, २४; १४, ११; पा ६, २,  
 २०<sup>s</sup>; -ऋनस्य शांश्रौ ५, ८, ४;  
 आपश्रौ; या ३, १२; ७, ९; १०,  
 ४; १४, १६; २१; -ऋनस्य  
 आश्रौ ४, १२, २; काश्रौ;  
 -ऋना आश्रौ ८, ३, १; शांश्रौ;  
 या ४, २७; -ऋनात् आश्रौ ४,  
 ११, ६; आपश्रौ; हिश्रौ ६, २,  
 १७<sup>q</sup>; -ऋनानाम् आश्रौ ७, ७,  
 ७; ९, ५, ५; शांश्रौ; या ७, २२;

a) वस. । b) उप. करणे क्त । c) विप. (भाववृत्तदेवत्य-] सूक्त- ) । d) भाप. (सृष्ट्यादिपदार्थानां प्रवृत्ति- [तु. पङ्गुरुशिष्यः]) । e) = ऋञ्- । f) भावैः एव > नैप्र. यनि. ? । g) भावाद्यर्थे प्र. । द्वादशमृगूणा- मन्यतम- । h) भावे युक्त प्र. । i) तु. पाक. पासि. । j) वैप १ द्र. । k) पाभे. वैप १, २३५७ e द्र. । l) पाभे. वैप १, २३५७ k द्र. । m) = व्याहृति-विशेष- । n) विशेषः टि. द्र. । o) व्यप. । p) पाभे. वैप १, १०३८ e द्र. । q) अपु २१९, २४ भवनम् इति । r) उदक-नामन्- । s) ऋना इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. आपश्रौ. भाश्रौ.) ।

-ङानि शांश्री ६, ११, ९, २, ५,  
१; आपश्रीः या ४, २७; ७,  
२९; ८, १४; १०, २६; ३४;  
माशिः -ङनाय आमिष्ट ३, ८,  
२ : १७; वीपि; या ७, २५;  
-ङने आपमं १, ९, ३; अप १,  
११, १; -नेभिः आपश्री ४, ५,  
५; माश्री ४, ७, १; हिश्री ६, २,  
४; -ङनेषु शांश्री १५, २.  
१८xx; आपश्रीःया १४, ३; २४.  
भौवन<sup>१</sup> -०न शांश्री १६.  
१६, ३<sup>१</sup>; -नः शांश्री १६, १६,  
२<sup>१</sup>; वाश्री २, २, ४, ५<sup>१</sup>; सु<sup>१</sup>  
२२, १; २३, १; २५, ६; ऋत्र  
२, १०, ८<sup>१</sup>; १५, ७<sup>१</sup>; शुभ्र २,  
२८<sup>१</sup>; ३, ५<sup>१</sup>; तात्र १,  
४५२<sup>१</sup>; २, ९३९<sup>१</sup>; या १०,  
२६<sup>१</sup>; -नम् सु २०, ३<sup>१</sup>; -नस्य  
चात्र ३९ : ५<sup>१</sup>; ८<sup>१</sup>.  
भौवनि<sup>१</sup> -नयः वीश्रीप्र  
३१ : ६.  
सुवन-नाग- नाग शंश ११६ :  
३४.  
ङसुवन-पति- न्तये आश्री १,  
४, ९; ३, १३, १५<sup>१</sup>; आपश्रीः  
-तिः काश्री २, १, १८; आपश्री  
३, १८, ४; वीश्री ३, २३ : १४;  
भाश्री ३, १४, २; नाश्री ५, २,  
१५, २; वाश्री १, १, ५, २; ९;  
हिश्री २, ८, १; वैताश्री ७, १८;  
-तिम्यः आश्री ४, २, ५; -तिम्  
वैष्ट १, ४ : ३; -०ते शांश्री ४,

२०, १<sup>१</sup>; काश्री.  
सुवनस-पति<sup>१</sup> -तिः वीष्ट ३, २,  
६<sup>१</sup>; -०ते नाश्री २, १, ४, ३१<sup>१</sup>.  
ङसुवनस-पति शांश ३, २, ९<sup>१</sup>.  
ङसुवस<sup>१</sup>(१ः) पाल ४, २१७; आश्री  
१, २, ३xx; ५, ९, ११<sup>१</sup>; शांश्रीः  
शौव २, ५२; ऋत ३, ७, ४;  
पा ८, २, ७१; पाग १, १, ३७.  
सुवस-लोक- कम् शंश ११६ :  
६६; नाशि १, २, ६.  
भुविस्- पाल २, ११२.  
सुवे या ७, २८<sup>१</sup>.  
१सू<sup>१</sup> - पा ६, ४, ८५; पावाग ३,  
३, १०८<sup>१</sup>; सुवः वैष्ट १, १८ :  
९<sup>१</sup>; विष्ट ३, ८२; २३, ५७;  
या ७, २७<sup>१</sup>; पा १, ४,  
३१<sup>१</sup>; ङंभुवः<sup>१</sup> आपश्री  
१०, २९, १; वीश्री ६, १६ :  
५; भाश्री १०, २०, १; वैश्री  
१२, २० : ९; हिश्री ७, ३,  
१८; भाष्ट २, २८ : १२; सुवस  
जैश्रीका १०५; विष्ट ३, ८१;  
८३; ५, १८१; ७१, ४१; ७८,  
१२; ९२, ४; सुवा<sup>१</sup> आश्री ९,  
५, ११; आपश्री २२, ७, २६<sup>१</sup>;  
ङसुवाम् वैताश्री १, १८; वीष्ट  
११६, २; अप्राय २, ६; ०सुवाम्  
वैताश्री १, १७<sup>१</sup>; भुवि जैश्रीका  
९५; वैष्टः ङंभुवे आपश्री २०,  
५, ९; वीश्री १५, ७ : १६;  
हिश्री १४, १, ४५; ङंभूः आपश्री  
४, ४, ४<sup>१</sup>; १२, २१, २;

१६, २३, ७; १०; २०, ५, ९;  
माश्री ४, ५, ५<sup>१</sup>; नाश्री ६, १,  
७, १६; वाश्री १, १, २, १६<sup>१</sup>;  
वैश्री १८, १७ : २८; २० : ३१;  
हिश्री ६, १, ५१<sup>१</sup>; १४, ३,  
४५; १७, ३, २४<sup>१</sup>; इञ्ज ४८,  
७२; ९८<sup>१</sup>xx; वाव; निष्ट १, ३;  
३<sup>१</sup>; या १४, ११<sup>१</sup>६.  
भू-कन्य- म्ये वैष्ट २, १२, ३.  
भूकन्यो( न्य-उ )कापात-  
दिग्दाह- हेष्टु विष्ट ३०, ९.  
भू-गत- नन् वैष्ट ३, ४, ४.  
भू-त्त- राः अप ५२, ९, ३.  
भू-जतु-वर्न-वीर-वेष्टु-फल-  
वल्क- स्कानाम् सुवय ८७:१७  
भू-तल- ल्वा शंश २२६; -ले  
कप्र १, १०, १४; नाशि १६, ७;  
नाशि २८, २७; आश्री १२, ४.  
भू-नृण-दृष्टान्त- न्तेन ऋत्र २,  
३०.  
भू-प<sup>१</sup> -पः लय ६८, ४, ५.  
भू-पति<sup>१</sup> - ङंत्तये आश्री १, ४,  
९; ३, १३, १५<sup>१</sup>; आपश्रीः  
-ङतिः आश्री ८, २, २१; काश्रीः  
-तिम् वैष्ट १, ४ : ३<sup>१</sup>; -तीद  
अप ३५, १, ६; -ङंते शांश्री ४,  
२०, १; काश्रीः -तेः विष्ट ६२,  
५१; वृदे ५, १९.  
भूपत्या( ति-सा )दि- तीद  
वैष्ट २, १३, ५.  
भू-प्रवाल- लः लय ७०<sup>१</sup>, ११,  
२९.

a) वैष १ द्र. b) व्यप. (विद्यकर्मन्) । c) पामे. वैष १, २३६० d द्र. । d) = अमुर-विशेष- ।  
e) = (सुवनपुत्र-) साधन- । f) = [सुवनपुत्र-] नाभि- । g) = ऋषि-विशेष- । h) पामे. वैष १, २३६० h द्र. ।  
i) परस्परं पामे. । j) पामे. वैष १, १८९३ a द्र. । k) पामे. वैष २, ३३० सुवस(ः) एना २, ३१ टि. द्र. ।  
l) विशेषः टि. द्र. । m) तु. पागम. । n) = अमुरो-विशेष- । o) भाष. । p) = एकह-विशेष- ।  
q) लपा. सुवा <> मूः इति पामे. । r) अन्तरिक्ष-नामन्- । s) उप. <√पा [रङ्गणे] । t) वैष १  
निर्दिष्टानां समावेशः द्र. । u) पामे. वैष १, २३५७ k द्र. ।

भू-प्रदान- नम् अप ७०<sup>३</sup>, ९, ३.  
 भू-प्रदेश- शो कप्र ३, २, ८.  
 भू-मण्डल- लम् विध १, ३५.  
 भू-लोक- कम् अप ४१, २, ८;  
 शेष ११६: ६६.  
 भू-स्थित- तः बौध ४, ८, १२.  
 भू-स्पर्श- शः जैश्रीका १७८.  
 २भू<sup>३</sup>- ऋभूः आपश्री १०, ६, ५;  
 माश्री ६, १, ८, ५<sup>३</sup>; वाश्री ३,  
 २, १, ३१<sup>३</sup>; चाश्र १६: २९.  
 १भूत, ता<sup>३</sup>- पाठमो २, २, १३१;  
 पाग २, १, ५९<sup>३</sup>; ४, ३१<sup>०</sup>; ४, २,  
 ३८; ७५<sup>३</sup>; -०त काश्री २, ३,  
 १<sup>३</sup>; -ऋतः काश्री २, ३, १; १८,  
 ५, ११; आपश्री; निघ ३, १३;  
 या ३, १६; ऋप्रा २, ४६;  
 -तम् शाश्री ८, २१, ३<sup>३</sup>;  
 आपश्री; वाधूश्री ४, १९: ११;  
 आपमं २, १०, १३; सु १३, १<sup>०</sup>;  
 आम्रिग २, ५, ११: ११<sup>०</sup>; भाग्य  
 २, २५: १; वैग्य ३, २: ३<sup>३</sup>,  
 द्राग्य १, ५, १९; अप ४८,  
 ७५<sup>३</sup>; आपध २, ३, १०;  
 बौध २, ७, २<sup>३</sup>; विध २०,  
 २२<sup>०</sup>; वृदे १, ४०<sup>३</sup>; निघ १,  
 १२<sup>३</sup>; या १४, १०<sup>३</sup>; ११<sup>३</sup>;  
 -ऋतस्य आश्री २, १०, १८××;  
 शाश्री; वृदे १, ६१<sup>३</sup>; या १०, २३<sup>३</sup>;  
 -ऋतस्य आपश्री ३, १८, २; ४,  
 ४, २; बौध्री ३, २३: १२;  
 हिश्री ६, १, ४७; वैताश्री १, १७;  
 -ऋता बौध्री १६, २७: १०;

१४; हिश्री ६, ३, २<sup>३</sup>; १७, ६,  
 ३७; -ऋताः आग्य २, १०, ८;  
 बौग्य २, ८, ३८; ३९; भाग्य ३,  
 १४: १६; वैग्य २, २: ८; अप  
 १, ८, ३; -तान् वैध १, ४, ४<sup>०</sup>;  
 -तानाम् ऋआश्री १, ४, ९; ३,  
 १३, १५; शाश्री ४, २०, १;  
 ५, १४, १२<sup>३</sup>; १५, ११,  
 १<sup>३</sup>; १६, १५, १<sup>३</sup>; काश्री;  
 या ३, १२; ४, ९; ७, ९; २२;  
 २७; १०, २६; १२, १५; -तानि  
 शाश्री १४, ५०, १; १६, १५,  
 १<sup>३</sup>; काश्री; अप ७०<sup>३</sup>, १०, १<sup>३</sup>;  
 या २, ५, ८; १०; १८; ४, १३;  
 २७<sup>३</sup>; ५, ४; ५; १४; ६, १५<sup>३</sup>;  
 ७, २१; ८, ११; १४; १०, ८;  
 ११; २६; ३४; ४६; ११, ३१;  
 ४१<sup>३</sup>, १२, ११; १३, ११; -तान्  
 बौश्री २, १०: २०; २४; २८; १६,  
 २७: १०; ११; हिश्री; -ताय  
 ऋशाश्री १, ४, ५; ६, २, २; काश्री  
 २, ३, २३<sup>३</sup>; आपश्री; शुश्र १,  
 ४२<sup>३</sup>; या १४, ३५; ३७; -ते  
 आश्री १, २, १; १२, ४, १०;  
 आपश्री; पा ३, २, ८४; ३, २;  
 १४०; -ऋतेन बौश्री ३, १८: ५;  
 माश्री; -ऋतेभ्यः काश्री ५, ४,  
 १३; आपश्री; या ३, ९९; भाशि  
 २४; -तेषु शाश्री १६, १५, १<sup>३</sup>;  
 काश्री; या १४, २४; -ते:  
 वाधूश्री ४, ९६: ३०.  
 भौत- पा ४, २, ३८; ७५;

-तः<sup>३</sup> कप्र २, ३, ३; विध ५९,  
 २४.  
 भूत-कर<sup>३</sup>- रस्य अप्रा १, ३, ६.  
 भूत-करण- णम् वृदे ८, ८५;  
 -णस्य शौच ३, ४९<sup>३</sup>.  
 भूत-काल- लै शुप्रा ५, ११;  
 अप्रा २, ३, ४; ७.  
 भूतकाल-लक्षण-त्व- त्वात्  
 पावा ५, ३, ६७.  
 ऋभूत-कृत्<sup>३</sup>- कृतः आपश्री ६,  
 ५, ६; भाश्री; -कृतम् आपश्री  
 १, १०, १०; हिश्री २, ७, ५९.  
 भूतकृतां (त्रात्यस्तोम-)  
 शाश्री १४, ७२, १.  
 भूत-गृह्य<sup>३</sup>- ह्येभ्यः पाग्य १, १२,  
 ३; २, ९, ३.  
 ऋभूत-गोप्त- प्ले अप १, ३९,  
 २; अशां ९, २.  
 भूत-ग्राम<sup>३</sup>- मम् कप्र २, २,  
 ३-८; विध १, १७; नाशि १,  
 २, १६; -माः या १४, ४; -मे  
 चाश्र ११: ३.  
 भूतग्राम-स्थावर-जङ्गम<sup>३</sup>-  
 -माः या १४, ४.  
 भूत-तन्त्र- न्त्रम् वैध ३, १२,  
 ७; आज्यो ४, ९.  
 भूत-त्व- त्वात् मीस् २, १, ३.  
 १भूत-दाह- > ण्हीय<sup>३</sup>- यान्  
 आपध १, २३, ३<sup>३</sup>; ४; ३१, २३;  
 हिध १, ६, १२; ८, ४२.  
 २भूत-दाह<sup>३</sup>- हान् हिध १, ६,  
 ११<sup>३</sup>.

a) वैप १ द्र. । b) पाभे. वैप १, २३५७ e द्र. । c) = पिशाच- इति पागम. । नैप्र. < \*वाध-  
 भूत- इति । d) भूत- इति पाका. । e) = प्राणिन्- । f) = भोज्य-द्रव्य- (तु. C.) । g) = अन्न- ।  
 h) = भूत-काल- । i) पाभे. वैप १, २३६२ c द्र. । j) पाभे. वैप १, २३६२ j द्र. । k) पाठः ? (तु.  
 पृ १७४५ ० टि.) । l) पाभे. वैप १, १२६३ ० द्र. । m) = भूत-यज्ञ- । तस्येदमीयः क्षण् प्र. ।  
 n) = (पारिभाषिक संज्ञा-) आगम- । o) = देवता-विशेष- । p) पस. उप. = समूह- । पाप्र. ग्रामच् प्र. उसं.  
 (पावा ४, २, ३७) । q) कस. > दस. । r) विप. (दोष-) । हितार्थीयः छः प्र. । s) परस्परं पाभे. । t) वस. ।

भूत-दैव (त्य>) त्या<sup>१</sup>- त्याः  
 वैगृ २, २ : ८.  
 भूत-नामधेय- -यानि या १४,  
 १०.  
 भूत-पति- -तिः मागृ १, ११,  
 ९; अथ २, १४; -०ते शांश्रौ  
 ४, २०, १.  
 भूत-पूर्व- -र्वस्य पावा १, १,  
 २९<sup>३</sup>; -र्वे पा ५, २, १८; ३,  
 ५३; ६, २, २२.  
 भूत-प्रकृति- -तिः या १४, ३.  
 भूत-प्रवाक<sup>४</sup>- -काय भागृ २,  
 २५ : १५१.  
 भूत-प्रवाचन- -ने कप्र २, ९,  
 २३.  
 भूत-चलि- -लिः आपघ १,  
 १२, १५; हिघ १, ४, १५;  
 -लिम् आमिगृ २, ५, ११ : १; ६.  
 भूत-भविष्य-काल- -लः अप  
 १, ८, ३.  
 भूत-भविष्यत्- -प्यतोः पावा  
 ३, २, ११०.  
 भूत-भव्य<sup>५</sup>- -व्यस्य कौसू  
 १३५, ९.  
 भूत-भव्य-भवद्-रूप<sup>६</sup>- -पम्  
 विघ ९७, १९.  
 भूत-महेश्वर- -रम् विघ १, ६०.  
 भूत-मात्र- -त्रे पावा ३, २,  
 ११८.  
 भूत-यक्ष-ग्रहा( ह-आ )यतन-  
 -नेषु शंघ १५७.  
 भूत-यज्ञ- -ज्ञः आगृ ३,  
 १, २; ३४; आमिगृ; -ज्ञम्

आमिगृ २, ६, ७ : ३; वौघ  
 २, ६, ४; -ज्ञाय वैगृ ३, ७ :  
 ७; -ज्ञेन वौगृ २, ९, १५<sup>७</sup>.  
 भूत-वत् वृदे ४, २९; पा ३, ३,  
 १३२.  
 भूतवद्-अतिदेश- -शे पावा  
 ३, ३, १३२.  
 भूतवद्-वचन- -नाव पावा  
 ५, ३, ६७.  
 भूत-विग्रह- -हे अप ६८, २,  
 ३९.  
 भूत-संप्लव- -वात् आपघ २,  
 २४, ५; हिघ २, ५, १७०.  
 भूत-हित- -ते विघ ९९, २०.  
 भूतहिता (त-अ) र्थ- >  
 ०र्थिन्- -र्थिना विघ १, १२..  
 भूतां (त-अं) श<sup>८</sup>- -शः ऋत्र २,  
 १०, १०६; वृदे ८, १८; या १२,  
 ४०; -शम् वृदे ८, १९.  
 भूता (त-आ) त्मन्- -त्म वाघ  
 ३, ६०; वौघ १, ५, २; ३, १,  
 २३; विघ २२, ९२; या १४, ३.  
 भूता (त-आ) दि- -दिभ्यः  
 अप्रा २, ३, १०; -दिषु पावा  
 ४, १, ३.  
 भूता (त-अ) धिकार- -रस्य  
 पावा ३, २, ८४.  
 भूता (त-अ) धिपति- -त्त्वे  
 वौघ ३, ६, १२.  
 भूतानाम्-जवेष्टि<sup>९</sup>- -ष्टीः आपश्रौ  
 १८, १५, ९; १६, १२; वौश्रौ  
 १०, ५९ : १; ११, ७ : १९;  
 १२, ११ : २०; हिश्रौ १३, ५,

३१; ३६.  
 भूता-भव्य<sup>५</sup>- -व्यौ आपश्रौ  
 २०, १२, ९; वौश्रौ १५, ३६ :  
 २१.  
 भूता (त-अ) र्म- पा ६, २, ११.  
 भूता(त-अ)वेष्टि-मन्त- -न्तैः  
 वैश्रौ १९, ३ : १५.  
 भूते-च्छद्<sup>१०</sup>- -च्छदः आश्रौ ८,  
 ३, २७; वैताश्रौ ३२, ३०;  
 -च्छदाम् तैप्रा १४, ८१.  
 भूते (त-इ)न्द्रिय- -यैः या १४,  
 १०.  
 भूते (त-इ)ष्टका<sup>११</sup>- -काः आपश्रौ  
 १७, २, ६; वौश्रौ १०, ४६ :  
 ७x४; वैश्रौ.  
 भूतो (त-उ) पदेश- -शः मीसू  
 ११, ३, ४१.  
 भूतो (त-उ) पमा- -मा या ३,  
 १६.  
 भूतो( त-उ ) पस्ष्ट<sup>१२</sup>- -ष्टः  
 आपश्रौ १५, १९, ४; माश्रौ ११,  
 १९, १३; -ष्टानाम् आमिगृ २,  
 ५, ३ : ४५; वौगृ ३, ७, २७; २८.  
 भूतरू<sup>१३</sup>- -तः नाशि ११५; १२०.  
 भूति<sup>१४</sup>- -त्तये आश्रौ १, ४, ९;  
 वैश्रौ २०, २७ : ४<sup>१</sup>; कौसू ३,  
 ११; -तिः आश्रौ ३, १३, १५१;  
 शांश्रौ; पागृ २, १७, १५<sup>१५</sup>; पूर्व<sup>१६</sup>  
 १, २१ : ८; २, ७ : ११; ३,  
 ७ : २३; अप<sup>१</sup> ४०, ५, १<sup>१७</sup>; ३<sup>१</sup>;  
 -तिनाम् अप<sup>१</sup> ४, ५, १५; ६, २,  
 ७; -तिम् कशांश्रौ २, १३, ६; ५,  
 १, १०<sup>१८</sup>; आपश्रौ; अप ४, ४, ८<sup>१</sup>;

a) वत्त. । b) नाप. । उप. कर्त्तरि ण्ण प्र., कुत्वम् (पा ७, २, ५३) च । c) वैप १ द्र. । d) द्रस. >  
 वत्त. । e) सप्र. भूतयज्ञेन<> भूतियज्ञेन<> आमिगृ २, ६, ५ : १६ ? यज्ञभूतिकं इति पाभे. । f) = आहुति-  
 विशेष- । g) होम-विशेषयोः द्रस.पूप. आनहादेशः उक्तं. । h) पूप. = पिशाच- । i) विशेषः उक्तस्य टि. द्र. ।  
 j) पाभे. वैप १, २३६४ ० द्र. । k) = (उपचारात्) देवता- । l) = १भत्मन्- । m) पुंस्त्वं छान्दसं द्र. ।  
 n) पाभे. वैप २, ३४. सुक्तिम् तां १, १ टि. द्र. ।



५, ११<sup>०</sup>; ६, २, ३<sup>०</sup>; ७, १, ६<sup>०</sup>;  
१७, २, १५<sup>०</sup>; वृदे ३, ३२;  
-?तीनाम्<sup>b</sup> भाग ३, १५ : २५;  
-०ते वीश्रौ १२, १ : १७;  
अत्र ६, ८४; -तौ द्राश्रौ २, २,  
३३; १०, ३, ७<sup>०</sup>; लाश्रौ ३, ११,  
४<sup>०</sup>; -स्याः अत्र ९, ६(५)<sup>०</sup>;  
-०त्तै काश्रौ १७, २, ४; आपश्रौ  
९, १३, ६; १५, ११, १; १६, १६,  
१<sup>०</sup>××; वीश्रौ; माश्रौ ६, १, ५,  
२१<sup>०</sup>; वाश्रौ २, १, ४, २७<sup>०</sup>;  
वैश्रौ १३, १३ : ३; १८, १४ :  
१०<sup>०</sup>; २० : ३१; हिश्रौ ११, ६,  
१२<sup>०</sup>××.

भौतिक<sup>d</sup>- -कम् अप ३१,  
१०, १; २.

भूति-कर- -रम् अप ७, १, ३.

भूति-कर्मन्- -र्मणाम् कौश्र १,  
६, १; शांश्र १, १०, १; वीश्र १,  
१, २१; -र्मसु कौश्र १, ८, १६;  
शांश्र १, १२, १३; आपध १, १३,  
९; हिघ १, ४, २३; आज्यो ५,  
३; -र्मणि वीध १, ३, १२.

भूति-काम- -मः आश्रौ ९, ७,  
२८; आपश्रौ; -मम् माश्रौ ५,  
१, ७, १; ९, ३७; १०, २६; वाधूश्रौ  
४, ९० : २९; -मस्य माश्रौ ५,  
१, ५, ५; ७१; वाश्रौ; -मैः विध  
१००, ३.

भूतिकाम-राजकामा( म अ )  
चायकामे( म-इ )न्द्रियकाम-तेज-

स्काम- -मानाम् आश्रौ ९, ८,  
२३.

भूति-कामिन्- -मी आमिष्ट २,  
४, ११ : २५.

भूति-देवता-> ०व(त्य > )

त्या- -त्या शुभ्र २, १२१.

भूतिन्<sup>e</sup>- -तिनः वीश्र २, ९, १५<sup>०</sup>.

भूति-मत्- -मान् आमिष्ट २, ४,  
११ : २५.

भूति-यज्ञ- -ज्ञेन भाग ३, १५ :  
२५<sup>f</sup>.

०भूति-वर्धन- -नम् आपश्रौ  
५, १८, २; हिश्रौ ६, ५, १६.

भूति-साध(न >)नी- -नी  
अप २६, ४, ३.

भूत्या(ति-आ)दि- -दिषु अप  
६३, ५, २.

भूत्वा आश्रौ ३, १०, ६<sup>०</sup>××; शांश्रौ;  
०आपमं १, १५, ५<sup>०</sup>; १७, ७<sup>०</sup>.

भूम<sup>1</sup>- -साय वीश्र २, ८, ९<sup>०</sup>.

०भूमन्<sup>1</sup>- -म आपमं २, १५, १;  
आय २, ७, २५; या १०, ४;  
ऋप्रा ८, १७; अश्र १, १, १२;  
-मा ऋप्रा ७, ३२; ८, ४८.

०भूमा<sup>1</sup> ऋप्रा ८, १५.

२भूमन्<sup>k</sup>- पा ६, ४, १५८; -मा  
छुसू ३, १ : ३; अप्रा ३, १, ६<sup>०</sup>;  
मीसू १, ४, २७; -मानम् आपश्रौ  
४, १०, १<sup>०</sup>××; वीश्रौ; हिश्रौ  
१६, ५, १४<sup>०</sup>; १८, ४, ६५<sup>०</sup>;  
-ग्नः छुसू ३, १ : ५; निस् ४,

३ : ३३; ८ : ८; -०ग्नाः काश्रौ  
४, ९, १५; आपश्रौ; -ग्ने जैश्रौ  
११ : ५.

भूमि,मी(वप्रा.)<sup>1</sup>m- पाठ ४, ४५;  
पाग ३, ४, ७४; ४, १, ११२<sup>०</sup>; ३,  
७६; ८, २, ९; -मयः या १३,  
२; -०मि आपमं २, १८, ९<sup>०</sup>;  
पाग; आमिष्ट ३, ८, २ : ३४<sup>०</sup>;  
वीपि १, १५ : ४२<sup>०</sup>; -०मिः  
आश्रौ ३, १४, १२××; शांश्रौ;  
आपश्रौ ८, ४, २<sup>०</sup>; वीश्रौ ५, ४ :  
२६<sup>०</sup>; हिश्रौ ५, १, ४५<sup>०</sup>; पाग २,  
१७, १५<sup>०</sup>; या १४, ११; ऋप्रा  
४, ४०<sup>०</sup>; -मिम् ०आश्रौ २,  
२०, ४××; शांश्रौ; या २, ८; ६,  
२२<sup>०</sup>; ७, २३<sup>०</sup>; १०, ४; ११,  
३७<sup>०</sup>; -०मीः आश्रौ ३, ८, १;  
वीश्रौ १३, २१ : ९; सु २८, ३;  
या<sup>1</sup> ३, २; -०मे वेताश्रौ २७,  
८; कौसू; -मेः शांश्रौ १६, ९,  
२२; १७, ४, ७; १०, १३; आपश्रौ;  
शुप्रा ४, ४०; आज्यो ८, ४; -मौ  
आश्रौ १, ३, २२; शांश्रौ; -०ग्म्याः  
आपश्रौ ४, ५, ५; वीश्रौ; -स्याम्  
आपश्रौ ६, ११, ४; ७, १८, १२;  
वीश्रौ; -म्यै वीश्रौ ४, १ : १५;  
१३, २४ : ९; वैश्रौ १०, १ :  
१३; हिश्रौ ४, १, १४; आमिष्ट  
३, ६, ३ : १६<sup>०</sup>; वीपि १, ११ :  
१३<sup>०</sup>.

भौम,मा(वप्रा.)<sup>1</sup>m- पा ४,

a) = १भस्मन्- ।

b) पाठः ? ०तिनाम् इति शोधः । सपा. वीश्र २, ९, १५ भूतिनः इति पाभे. ।

c) पाभे. वैप १, २३६४ ० द्र. । d) विप. > नाप. ( पशुपतेर-व्रत- ) । तस्येदमीयष् ठक् प्र. उखं. ( पा ४, ३, १२४ ) ।

e) मत्वर्थे इनिः प्र. उखं. ( पा ५, २, ११६ ) । f) पाभे. पृ १८७० ० द्र. । g) पाभे. वैप १, २३६४ i द्र. ।

h) पाभे. वैप १, २३६५ ० द्र. । i) = देवता-विशेष- । वैप ३, ६२० i द्र. । j) वैप १ द्र. ।

k) = १भूयस्- । पाप्र. < बहु- । l) वैतु. भाष्यम् = स्थान- इति । m) विशेषः टि. द्र. । n) व्यप. ।

o) पाभे. वैप १, २३६६ a द्र. । p) पाभे. वैप १, २३६७ b द्र. । q) पाभे. वैप २, ३खं. भूमिः तैत्रा १०

५, ५, १ टि. द्र. । r) = ( उपचारात् ) देवता- । s) वैप १, २३६६ ० द्र. ।

१, ११२<sup>a</sup>; ३, ७६; -मः काश्रौ  
२३, ४, २०; अप ५१, ३, २<sup>a</sup>;  
ऋञ्च २, ५, १<sup>b</sup>; साञ्च<sup>b</sup> १, ३३६;  
३४५; ३६६; ४१५; ५६४; २,  
११०२; अप ४: ३४<sup>c</sup>; आञ्चो  
८, १; -मम् आपश्रौ २२, २१,  
४; वाश्रौ ३, ४, ५, २४; हिश्रौ  
१७, ७, २९; माश्र २, १६, १;  
कौस् ३८, १६<sup>d</sup>; अप; अश्र १२,  
१<sup>d</sup>; -मस्य कौस् ३८, १२;  
अप ५२, १५, ५<sup>a</sup>; -मा<sup>e</sup> अश्र  
३, २९; १८, ३; -माः आपश्रौ  
२०, १४, ६<sup>f</sup>; -मान् वैश्र १, ४:  
२१<sup>f</sup>; शंघ ११६: २६;  
-मानाम् काश्रौ २४, ६, २<sup>f</sup>;  
-<sup>g</sup>माय<sup>g</sup> आश्र २, १, ४; ८, १५;  
पाश्र २, १४, १०<sup>b</sup>××; वौश्र; -मे  
अप ७०, ३, १; आञ्चो ६, १२<sup>h</sup>;  
-मेन अप ७०<sup>i</sup>, ७, १<sup>d</sup>.

भौम-दिव्य- च्याञ्  
वैश्र १, ४: २२<sup>f</sup>.

भौम-वार- -रे आश्रिण  
२, ७, ६: २१.

भौमा(म-आ)न्तरिक्ष-  
दिव्य- न्यम् अप ८, १, ७.

भौमिक<sup>1</sup>- कैः विघ २३,  
५४<sup>k</sup>.

भूमि-कपाल<sup>1</sup>- लः काश्रौ २०,  
३, १६; -लम् वौश्रौ २४, १०:  
१५; २७, १४: २२; २८, ४:  
१३.

भूमि-कम्प- न्यः अप ५७, ४,  
७; ७०<sup>2</sup>, २३, १; -न्याः अप

६२, १, १; ६४, २, ७; ६८, ५,  
१६; -न्यान् अप ६४, १, ४;  
-न्यानाम् अप ६२, ४, ५; -न्ये  
अप ७१, १६, ३.

भूमिकम्पै (म्प-ए) वसादि-  
क- कम् अप ६९, ५, ५.

भूमि-काम- मस्य अशां १७,  
५.

भूमि-खात<sup>m</sup>- तस्य अप ३९,  
१, १.

भूमि-ना- नैः वौष १, ५, ८९<sup>k</sup>.

भूमि-गत,ता- तम् वाघ ११,  
२४; विघ ८१, २३; -ता शंघ  
२३४; -ताः वौष १, ५, ५७;

-तान् माश्रौ १, ८, ४, ६; -तासु

आपघ १, १५, २; हिघ १, ४, ६१.

भूमि-नामन- नम् या १४, ३१.

भूमि-चल<sup>n</sup>- लः कौस् ९८, १;

-ले द्राश्र ३, २, ३०; कौस् ९३,

६; आपघ १, ११, ३०<sup>o</sup>.

भूमि-चलन- ने कौस् १४१,

२१; वाघ १३, ३३; हिघ १, ३,

८०<sup>o</sup>; काघ २७५: १०.

भूमि-ज- -जः या १, १४.

भूमि-जोयणा(ए-आ)दि- दि

पाश्र ३, १०, १०.

भूमि-ज्ञान- नेन वाघ २९, १६.

भूमि-दुन्दुभि<sup>n</sup>- -भिः वाश्रौ ३,

२, ५, २८; हिश्रौ १६, ६, २७;

-भिम् शांश्रौ १७, ५, १०; १४,

११; १७, ६; आपश्रौ.

भूमि-दैव- -वान् वौष २, ५,  
२६.

भूमि-दैव(त्य>)त्या<sup>1</sup>- त्याः  
वैश्र ३, १६: ९.

भूमि-दोह- -हान् अप ४, ६, ४;  
६९, ७, ३.

भूमि-धेनु<sup>1</sup>- -नुम् आश्रिण ३,  
१०, २: १०; वौषि ३, ९, ५.

भूमि-प<sup>r</sup>- -पः शंघ ९४; -पम्  
विघ ३२, १७; -पाः याशि २, १.

भूमि-पति- -तिः कौस् ९४, २;  
१२६, २; -तेः अप २, ३, ४;

-तौ गोश्र ३, ३, २४.

भूमि-परिदंहुण- णम् आपश्रौ  
७, १०, १२.

भूमि-परिलेख- -खम् कौस् ५२,  
४; -खे कौस् १८, २२.

भूमि-पाल- -लाः अप ५१, ३,  
४.

भूमि-पादा- -शे पावा ६, ३, ९.

भूमि-पुत्र<sup>3</sup>- -त्रेण शंघ ११५.

भूमि-पुरुष-प्राहणस्व-वर्जम्  
काश्रौ २०, ४, २७.

भूमि-पुरुष-वर्जम् आश्रौ १०,  
१०, १०; वाश्रौ ३, ४, ४, २७.

भूमि-प्रदान- -नेन विघ ९२, ३.

भूमि-प्रदेश- -शे वाश्र १४, ६.

भूमि-प्रमाण- -णेन अप २, ३,  
२.

भूमि-प्राप्त,सा- -साम् काश्रौ  
१७, ४, १८; -से काश्रौ ८, ५,  
३३.

भूमि-भृ<sup>4</sup>- -भृणाम् अप ७०,  
१, ८.

भूमि-भाग- -नाः लाश्रौ १०,  
२६.

a) = मङ्गल-ग्रह- । b) व्यप- । c) = (भूमिदेवत्य-) अनुवाक-विशेष- [शौ १२, १] । d) = अनुवाक-  
विशेष- । e) = ऋच्- । f) विप. > नाप. (यज्ञाद्- ) । g) = देव-विशेष- । h) पाभे. वैप २, ३२<sup>l</sup>.  
भूम्याप तेषाञ्चा ६७, टि. द्र. । i) = मङ्गल-वार- । j) भवायै ङ् प्र. । k) नना. भौमिकैः  
<> भूमिर्गैः इति पाभे. । l) वस. । m) = तडागादि- । n) = भूमि-रूप- । o) सपा. °चले <>  
°चले इति पाभे. । p) वैप १ द्र. । q) मलो. कस. । r) = क्षत्रिय- । उप. <√पा [रक्षणे] ।



१७, ५, १०; वीथी १०, ४५ :  
 ३२; वैश्री १९, ५ : २४; हिश्री  
 १२, २, ७.  
 भूयस्त्व- स्वम् हिश्री ३, ८,  
 ३३; कप्र २, १, १३; -त्वात्  
 काश्री १, ५, ९; ५, ११, २४; १५,  
 ४, १९; हिश्री ३, ८, ३४; -त्वेन  
 वाश्री १, १, १, ७०; मीत् ३, ३,  
 १०; १२, ३, ३.  
 भूयो( यस्-अ )क्षर, रा<sup>१</sup> - रामिः  
 छत् १, ७ : २०<sup>१</sup>०.  
 भूयोक्षर-त्(र >) रा-  
 रामिः माश्री ३, ७, ११<sup>१</sup>०.  
 भूयो-म(घ्य >) घ्या<sup>१</sup> - घ्या  
 लनिस् २ : ८.  
 भूयो-मय- पावा ५, २, ४७.  
 भूयो-मात्र- त्रम् कौत् ९१,  
 १८.  
 भूयो-वादिन्- वी भास् ३, ६.  
 भूयो-वि(धा >) घ<sup>१</sup> - घः या  
 १, १६; १३, १२.  
 भूयिष्ठ, छा<sup>१</sup> - पा ६, ४, १५९; पाग ८,  
 १, २७; -छम् आश्री २, ३, २०;  
 शाश्री २, ९, ५; काश्री ४, १४,  
 १८; आपश्री; -छा वामिष्ठ ३,  
 ८, ३ : ४<sup>१</sup>०; -छाः शाश्री ८, ८,  
 ७; १५, २६, १; आश्री; या ७,  
 ३; १३; -छात् वीथी ४, ३ : २८<sup>१</sup>०;  
 निस् २, २ : ४; -छानाम् वीथी  
 ४, ३ : २७<sup>१</sup>०; निस् ४, ८ : १०;  
 -छानि लाश्री १०, १, १५; निस्  
 २, २ : २५; ७, ५ : २५; २८;  
 ९, ३ : ६; -छाम् वीथी ६,  
 ३० : २७; ८, ५ : १४; अप्राय

१, ५; -छे लाश्री ६, ६, ८; माष्ट  
 १, २, १, १.  
 भूयिष्ठ-नात् - ते काष्ट ४०, १<sup>१</sup>०.  
 २भूयिष्ठ-नात्<sup>१</sup> - तेषु काष्ट ३२,  
 २.  
 भूयिष्ठ-भाज<sup>१</sup> - भाक् निस् १,  
 १० : २३, ९, ८ : २५; -<sup>१</sup>भाजः  
 आपश्री ३, १२, १; ४, १४, ४; ६,  
 २५, १०; माश्री ३, ११, १; हिश्री  
 २, ६, १४; ६, ६, १६; भाशि ४६.  
 भूयिष्ठा( छ-अ )चिस्<sup>१</sup> - चिषि  
 काश्री ४, १५, १६.  
<sup>१</sup>भूस् ( : ) आश्री १, २, ३; ५;  
 ११, १३<sup>२</sup>; १२, १२; ३२;  
 ३३; १३, ७; २, ३, १२; १६;  
 २७; ४, २५; ५, १३; १७, १०;  
 ३, १२, ४; ५, २, १२<sup>२</sup>; १३;  
 ९, ११; वाश्री; वैश्री १२०, ५ :  
 ४; ५; पाग १, १, ३७९.  
 भूस्-भादि- दयः कप्र २, १, ६.  
 भूस्-लोक- कात् नाशि १, २,  
 ६.  
<sup>१</sup>भूरि<sup>१</sup> - पाठ ४, ६५; -<sup>१</sup>रयः  
 आमिष्ठ ३, ८, २ : १९; वीषि १,  
 १५ : २९; -<sup>१</sup>रि<sup>१</sup> आश्री १,  
 १०, ८; ४, १०, १; शाश्री ५,  
 १४, ८; ९, २८, ३; १६, ११,  
 २७; आपश्री १४, ३३, ६; १६,  
 ३४, ४; वीथी; या २, ७<sup>१</sup>xx;  
 ११, २१<sup>१</sup>; -<sup>१</sup>रिः पाष्ट २,  
 १, १३<sup>१</sup>; निघ ३, १; -रिम्  
 शाश्री ६, ११, ७<sup>१</sup>; या १२,  
 २२; -<sup>१</sup>रीगि<sup>१</sup> आपश्री १६,  
 ३५, २; वीथी १३, ३९ : ११;

वैश्री १९, १ : ११; १५; हिश्री  
 १३, ८, २३; -<sup>१</sup>रिः आपश्री ५,  
 २३, ९; ६, २३, १; पाष्ट १, १८,  
 ४; कौस् ५, २; श्रुपा २, १९.  
<sup>१</sup>भूरि-कर्मत्<sup>१</sup> - मी<sup>१</sup> आपश्री २,  
 ११, १०; वीथी १, १० : १७;  
 भाश्री २, ११, ११; हिश्री १, ८,  
 ३१.  
 भूरि-ज- जानाम् शाश्री ८,  
 १७, १<sup>१</sup>.  
 भूरि-जिज्<sup>१</sup> - <sup>१</sup>जिज् आपश्री  
 १६, ३०, १; वैश्री १८, २० :  
 ३९; हिश्री १३, ८, ४.  
 भूरि-तोक्<sup>१</sup> - काः या १, १०<sup>१</sup>.  
 भूरि-दा<sup>१</sup> - दाः वीथी ४, ३ :  
 २७<sup>१</sup>.  
 भूरि-दावत्-तर<sup>१</sup> - पावा ८,  
 २, १७; -रा या ६, ९<sup>१</sup>.  
 भूरि-दावत्<sup>१</sup> - त्रः शेषि ७३<sup>१</sup>.  
 भूरि-घन<sup>१</sup> - <sup>१</sup>नाः<sup>१</sup> आपश्री ६,  
 २७, ३; काष्ट २७, ३.  
<sup>१</sup>भूरि-धा(र >) रा<sup>१</sup> - रा अप्रा  
 २, २, १६; -रे या ५, २.  
 भूरि-सु(त्र >) त्रा<sup>१</sup> - <sup>१</sup>त्रा  
 आपश्री १५, ७, ७; वीथी ९,  
 ७ : १२; भाश्री.  
<sup>१</sup>भूरि-रेतस्<sup>१</sup> - तसा आपमं  
 २, २०, ३१; -ताः<sup>१</sup> नाश्री १,  
 २, ४, ४; वाश्री १, १, २, १९.  
 भूरि-श्र्द्र<sup>१</sup> - द्राः या २, ७<sup>१</sup>.  
<sup>१</sup>भूरि-सख<sup>१</sup> - खाः<sup>१</sup> हिश्री ६,  
 ७, ८; हिष्ट १, २९, १.  
 भूरि-संपद्<sup>१</sup> - पद्ः अ१५९, १, ७.  
<sup>१</sup>भूरि-स्था(त्र >) त्रा<sup>१</sup> - त्राम्

a) दत्त. । b) सपा. रामिः (तां ९, ३, ८ च) <> परतरामिः इति पाठे. । c) वैप १ द्र. ।  
 d) कप्र. । e) कचित् वा. निवि. । f) पाठे. वैप १, २, ३६९ d द्र. । g) पाठे. वैप १, २, १०१ n द्र. ।  
 h) पाठे. पृ १८७३ d द्र. । i) पाठे. वैप १, १७१५ r द्र. । j) पाठे. वैप १, २, ३७० m द्र. । k) पाठे.  
 वै १, २, ३७० g द्र. । l) सप्त. समाप्तान्तः सप्त प्र. उस्तं. (पा ५.४, ७५) ।

ऋषा ५, २७.

भूष्णु- पावा ३, २, १३९; -ण्युः  
शांश्रौ १५, १९, १.

१-२भू- √भू द्र.

भूक- पाठ ३, ४१.

भू-कम्प- १भूत- प्रभृ. √भू द्र.

२भूत<sup>१</sup>- पाग ४, १, १८; १०५.

भौत्य- पा ४, १, १०५; -त्यम्  
शंघ ११६ : ४६<sup>१</sup>.

भौत्याय(न>)नी- पा ४, १,  
१८.

भूतांश- प्रभृ., भूम-, १-२भूमन्-  
√भू द्र.

†भूमने-घा- -घाः<sup>०</sup> आश्रौ ४, ६, ३;  
शांश्रौ ५, ९, ६.

भूमि- प्रभृ. √भू द्र.

‡भूमना<sup>१</sup> हिश्रौ १०, ५, १<sup>१</sup>.

१भूयस्- √भू द्र.

२भूयस्<sup>०</sup>-(> भौयसि-, भौयि- पा.)  
पाग ४, १, ९६.

भूयस्-कर- प्रभृ., भृद्, १भूरि-  
√भू द्र.

२भूरि<sup>१</sup>- पाग ४, १, ११२; -रयः<sup>१</sup>  
वौश्रौप्र १७:३; २७: १.

भौर- पा ४, १, ११२.

भूरी<sup>१</sup>- अप ४८, ७५<sup>१</sup>.

१भूर्ज<sup>१</sup>- पाठभो २, २, ९२; पाग २,  
४, ३१<sup>०</sup>.

भूर्ज-वृक्ष-म(य>)यी- -र्यः  
काण्ड ४० : २२.

भूर्ज-शकल- -लेन कौस् ३८, ९.

२<sup>१</sup>भूर्ज<sup>१</sup>->√भूर्जि > भूर्जयत्-  
-†यन्तस् साश्र १, ७४; उनिस्  
४: ११.

भूर्णि- √भुर द्र.

†भूर्वरि<sup>१</sup> आपश्रौ १४, १७, ३; हिश्रौ  
१५, ५, ३.

√भूप पाधा. भ्वा. पर., चुरा. उभ.  
अलंकारे.

भूषण<sup>१</sup>- पाग २, ४, ३१; ३, १,  
१३४<sup>१</sup>; -णम् अप ४१, ६, ५;  
६८, ५, १२; -णानि अप १, ३१,  
३; आज्यो ७, १; -णे पा १, ४,  
६४; ६, १, १३७; -णेषु अप ७०,  
५, ३; -णैः जैश्रौका १२.

भूषण-प्रासुर्थ-वाक्य- -क्येषु  
कृत ४, ५, ८.

भूपा->भूपा-कर्मन्- पावा ३,  
१, ८७.

भूपित- -ताः अप ६८, १, १७.

√भृ(=हृ।वधा.)<sup>१</sup> पाधा. भ्वा. उभ.  
भरथे; जु. उभ. धारणपोषणयोः,  
†भरन्ति आश्रौ २, ६, २<sup>१</sup>;  
शांश्रौ; भरथः या ५, ५<sup>१</sup>; †भरथ  
वौश्रौ १०, ४ : २२; वैश्रौ १८,  
१ : ५३; या ९, ९; †भरामि  
आपश्रौ १, ७, १३; वौश्रौ २, ९ :  
७; भाश्रौ; †भरामः आपश्रौ  
१६, ३, १३; वौश्रौ १०, ४ :  
२२; वैश्रौ; †भरत, >ता आश्रौ

६, ४, १०; शांश्रौ; †भरत्  
गोश्र २, ७, १४; या ११, २;  
१२, १०; †भरेम<sup>१</sup> आश्रिण ३, ८,  
२ : ४४; वौषि १, १५ : ५१.

†विभर्ति आश्रौ २, १०, २१;  
३, ८, १; शांश्रौ १२, १९, ४<sup>०</sup>;  
आपश्रौ; विभृतः माश्रौ १, ५, २,  
४; वाश्रौ १, ४, १, १९; ५, ४, ३८;  
या ३, २२; तैप्रा ४, ५२; विभ्रति  
वाधुश्रौ ४, ६५<sup>१</sup>: १०; निस् १, ६ :  
२१<sup>१</sup>; अप १८, ३, १०<sup>१</sup>;  
†विभर्षि शांश्रौ ५, ९, १३; वौश्रौ;  
†विभृथः आपश्रौ ५, ८, ८;  
वौश्रौ; †विभृथ, >या आश्रौ  
७, ११, ७; पाण्ड ३, ५, ३; या ६,  
२३<sup>१</sup>; †विभर्मि आश्रौ २, ५, ७;  
आपश्रौ ६, २५, २; वौश्रौ;  
†विभृवः आश्रौ २, ५, १०;  
माश्रौ १, ६, ३, १६; †विभरत्<sup>१</sup>  
हिश्रौ २, २, ४९; आश्रिण १, ७,  
३ : ३४<sup>१</sup>; †विभर्तु आपश्रौ  
२, २१, ७<sup>१</sup>; वाश्रौ २, १, ३, ५;  
आपमं १, १२, ८<sup>१</sup>; हिश्र १, २५,  
१<sup>१</sup>; †विभृताम आपश्रौ १, १२,  
२; हिश्रौ १, ३, २३; ४, ३; या  
९, ४०<sup>१</sup>; †विभृदि<sup>१</sup> आश्रौ २,  
५, ३; वौश्रौ ३, १३ : ३; माश्रौ  
१, ६, ३, ९; वाश्रौ १, ५, ४, २९;  
विभृत वौश्रौ १८, ४४ : २१<sup>१</sup>;  
या ६, २३; †विभृता<sup>१</sup> तैप्रा ३,

a) व्यप. । b) =मनु-विशेष- । c) वैप १, २३६० p; २३७१ h द्र. । d) पाठः ? भूः (क्रिप.), मा  
(अव्य.) इति शोधः (तु. सपा. मा ६, १२ आपश्रौ १३, १८, ७) । e) तु. पागम. । f) वहु. < सौर-  
g) =उदक- । h) वैप १ द्र. । i) पाठः ? भूवरे इति शोधः (तु. वैप १, ६३० m) । सपा. काठ ३५, ३ ? विभू  
इति पाभे. । j) भाप., नाप. । k) घृ १२९५ b द्र. । l) या २, १७; ३, ९ पा ३, २, ४६; ७, २, १३; ४९; ४,  
७६ परामृष्टः द्र. । m) पाभे. वैप १, २३७२ b द्र. । n) पाभे. वैप १ स्तुणामि शौ १८, ४, ५१ टि. द्र. ।  
o) पाभे. वैप १, २०८३ g द्र. । p) पाभे. वैप १, २३७३ a द्र. । q) अवि<sup>१</sup> इति पाठः ? यनि. शोधः (तु.  
हिश्रौ.) । r) पाभे. घृ १६२५ m द्र. । s) पाभे. वैप १, २३७३ n द्र. । t) पाभे. वैप १, २३७३ o द्र. ।  
u) वैप १, २३७३ p द्र. ।

१०<sup>१</sup>; ऋविभराणि<sup>१</sup> आश्रौ २,  
५,३; वीश्रौ; ऋविभः कौश्र  
५, १, १३; आमिष्ट ३, ५, २ :  
७; वीषि १, २ : ११; ऋप्रा १,  
८५; तैप्रा ८, ८; वीच २, ४४;  
विभ्र्यात् वाधृश्रौ ३, ४ : २;  
वाश्र ९, १२; हिश्रु; विभ्र्युः  
वीष २, २, ३८.

ऋभरिण्यति<sup>१</sup> आपश्रौ १६, १०,  
८; वैश्रौ; ऋभरिण्यामः आपश्रौ  
१६, २, ७; वीश्रौ १०, २ : १४;  
माश्रौ; ऋभ्रभाः वीश्रौ १०,  
२२ : १<sup>०</sup>; शुप्रा १, १६५; तैप्रा  
८, ८; भाः ऋप्रा १, ८२<sup>१</sup>.

जर्मरि<sup>१</sup> - री या १३, ५<sup>१</sup>.

ऋवत्रि<sup>१</sup> - वत्रिः या ६, १७; -त्रेः  
कौश्र ६२, १५; १६; अश्र ११, १.

विभ्रत् - भ्रत् आश्रौ ३, १२, १४<sup>१</sup>;  
शाश्रौ; आपश्रौ १०, २८, ३;  
भाश्रौ १०, १९, १५<sup>१</sup>; -भ्रत्तः  
आश्रौ ४, ६, ३; शाश्रौ; आपश्रौ  
६, १६, १२<sup>१</sup>xx; कौश्र ८९, १६;  
-भ्रन्तम्<sup>१</sup> विध १, ३७.

ऋविभ्रती - ती पाश्रु ३, ३, ५;  
काश्रु २७, ३<sup>२</sup>; कौश्र २४, ३९xx;  
अप; -तीः आश्रु २, १०, ६<sup>१</sup>; दंवि  
१, ४; -त्यः शाश्रौ १७, १४,  
१३; १७, ८.

शुमूर्पा - र्पा आपश्र २, १०, १; हिध  
२, ४, १.

१भरण,णा<sup>१</sup> - पाग ३, १, २७<sup>१</sup>; ४,  
४, १६; -णम् आमिष्ट ३, ७, ३ :

२०; वीषि २, २, २; हिषि १९ :  
७; वाध १७, ५४; शंघ २७२;  
आज्यो १०, ४; -णात् या १,  
१४; ३, १८; -णानाम् या ९,  
२८<sup>१</sup>; -णाय या ७, २५; -णे  
शंघ २७२.

भरण-कल्प - ल्यानाम् आपश्रौ  
५, ७, १३.

भरण-शेष - पम् भाश्रौ ५, ३,  
१९.

भरणिक - पा ४, ४, १६.

भरणीय - याः विध १५, ३९.

√भरण्य पा ३, १, २७.

२भरण - > ंणी<sup>१</sup> - ंणि अशां

५, ८; -णीः अप १, ५, २; ८,  
१०; -णीनाम् माश्रौ ६, २, ३,  
८; वाश्रौ २, २, २, १४; -णीभिः  
अप १, ३०, २; ४१, ८; ४५, ८;  
५०, ८; अशां ११, ८; -णीभ्यः  
शांश्रु १, २६, २८; अशां १२, ५;  
-णीषु जैश्रु २, ५ : २०; अप १,  
१०, ९; अशां १३, ५; -ण्यः  
अप १, १, २, २-३, १, ४, ८; ११,  
५; १४, १; ५७, १, १; वेज्यो १८.

भरणि-संज्ञक<sup>१</sup> - कम् अशां  
५, ८.

ऋभरत्व<sup>१</sup> - रन् वीश्रौ १०, ४ : १७;  
१९; वाश्रौ २, १, १, २९; -रन्तः  
वीश्रौ ३, ८ : २७; कौश्र २, १;  
अप ४५, २, १५; ऋप्रा २, ४५;  
शुप्रा ४, ६४; -रन्तम् अश्र १०,  
११.

भरन्ती<sup>१</sup> - न्ती या ११,  
३६<sup>१</sup>.

भरद्-वसु<sup>१</sup> - सुः शैशि १३८;  
-सोः चाअ ४० : ६.

भरद्-वाज<sup>१</sup> - पाग ४, १, १०४;  
११०; -जः शाश्रौ १४, १२;

२xx; निश्रु; -जम् आपश्रौ  
२४, ७, १०; वैश्रु १, ४ :

१५; अप १, ३९, ५<sup>१</sup>; अशां  
९, ५; वृदे ५, १२४; -जस्य

वीश्रौ १८, ५२ : १०; द्राश्रौ १,  
४, ४<sup>१</sup>; लाश्रौ १, ४, ४<sup>१</sup>; शुभ

२, ३५८; चाअ ३९ : १; १४;  
-जाः<sup>१</sup> आश्रौ १२, १३, २;

आपश्रौ २४, ७, ३; वीश्रौप्र १७ :  
१; १८; हिश्रौ २१, ३, १०; वृदे

४, ९८; -जानाम्<sup>१</sup> आपश्रौ २४,  
६, १८; वीश्रौप्र १९ : ९; हिश्रौ

२१, ३, १०; -जाय शाश्रौ १४;  
१२, २; आमिष्ट १, २, २ : १५;

वीश्रु ३, ९, ३; ६; भाश्रु ३, १० :  
१; ११ : ३; वृदे ५, १३९; ऋप्रा

१८, ५७<sup>१</sup>; उश्रु ३, ३<sup>१</sup>; -जे  
ऋप्रा ७, ३४; -जौ अश्र २०,

९०.

भारद्वाज<sup>१</sup> - पा ४, १,  
१०४; -ज आश्रौ १२, ११, २;

५xx; आपश्रौ; -जः आश्रौ ७, ६,  
५; काश्रौ; या ३, १७<sup>१</sup>; ६, ३०;

-जम् शाश्रौ १०, ११, ८xx;  
हिश्रौ; -जस्य पा, पावा ७, २,  
६३; -जाः वैश्रौ १२, १ : १९;

a) पागे. वैप १, २३७३ n द्र. । b) पागे. वैप १, २३७४ c द्र. । c) पागे. वैप १, २३७४ f द्र. ।  
d) विप. (अधिनः) । यद्भुगन्तात् कर्त्तरि प्र. । e) वैप १ द्र. । f) भ्रन् इति पाठः? चनि. शोधः (तु.  
आपश्रौ १०, २८, ३) । g) पागे. वैप १, २३७४ j द्र. । h) शतः तुम् उसं. (पा ७, १, ७८) । i) पागे.  
वैप १, २०८५ n द्र. । j) भवे कर्त्तरि च क्त् । k) तु. पागम. । l) विप. (श्रोपधि-) । m) वस. पृप.  
ह्यः (पा ६, ३, ६३) । n) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र. । o) =श्रुपि-विशेष- । वस. । p) दहु. <भारद्वाज- ।  
q) व्यन. (ऋपि-, आचार्य- [पा.]) ।

ऋअ २, ६, ५२; -जानाम् वैवष्ट, ३, १; -जाय हिगृ २, १९, ३; -जे वृदे ३, १२८; पा ४, २, १४५<sup>०</sup>.

भारद्वाजी- ङी ऋअ २, १०, १२७<sup>०</sup>; साअ १, ६०९<sup>०</sup>; ऋप्रा १७, ४८<sup>०</sup>; चव्यू २: १६<sup>०</sup>; -जीयु छुसू ३, ४: ९<sup>०</sup>; -ज्या: पागृ १, १९, ७<sup>०</sup>.

भारद्वाजक<sup>१</sup>- कम् याशि २, ४.

भारद्वाज-स-नोत्र- ऋत्रम् चव्यू ४: २३.

भारद्वाजायन- पा ४, १, ११०; -ना: वौश्रौ २ १७: १०; निस् २, ९: २३.

भरद्वाज-कुत्स-विश्वामित्र- ऋत्रा: अअ २०, ८<sup>१</sup>.

भरद्वाज-दुहितृ- ऋता शुअ ४, १९.

भरद्वाज-धन्वन्तरि<sup>१</sup>- ऋरये कौश्रु ३, १०, ४<sup>१</sup>; शांय २, १४, ४.

भरद्वाज-प्रवृत्क<sup>१</sup>- ऋस्केन कौसू ४७, १२.

भरद्वाज-वत् आपश्रौ २४, ६, १८; ७, ४; ६; १०; वौश्रौ २ १७: १९×४; हिश्रौ.

भरद्वाज-शिक्षा- ऋक्षाम् भाशि १३०.

भरद्वाजा(ज-आ)ग्निवेद्य- ऋस्यानाम् आश्रौ १२, ११, ५.

भरद्वाजा(ज-आ)दि- ऋयः

वौध ४, ६, ९.

भरत<sup>१</sup>- पाड ३, ११०; पाग ४, १, ८६<sup>०</sup>; १२३<sup>०</sup>; १७६<sup>०</sup>; ५, २, ११७<sup>०</sup>; -तः कौसू ७१, ६<sup>१</sup>; साअ<sup>१</sup> १, ६११; २, ९४६; या ८, १३; -ऋतम् आपश्रौ २, १८, ९; वौश्रौ १, १६: १३; भाश्रौ २, १७, ९; माश्रौ १, ३, २, १२; हिश्रौ २, २, २१; -तस्य आश्रौ ४, ५, ३<sup>१</sup>; वौश्रौ १०, १७: १२<sup>१</sup>; ऋअ २, ६, ५२<sup>०</sup>; -ता: अय ४८, ९६<sup>०</sup>; निघ ३, १८<sup>०</sup>; -ऋंता<sup>१</sup> आपश्रौ १८, १२, ७; १४, १०; वौश्रौ १२, ९: २०; हिश्रौ १३, ५, ४; -तान् अय ५०, १, ६<sup>०</sup>.

भारत<sup>१</sup>- पा ४, १, ८६; ५, ३, ११७; पाग ४, १, १२३; -ऋंत आश्रौ १, २, २७; ७, ८, १; शांश्रौ १, ४, १४; वौश्रौ १३, ५: ५; माश्रौ ५, १, ४, १२; हिश्रौ २१, २, ७; -तः आश्रौ ६, १, २; ७, ८, १; ऋअ २, ५, २७; -तम् शंघ ११६: ४०<sup>१</sup>; -तेन वृदे ५, ८३; -तौ ऋअ २, ३, २३; शुअ १, १८३; ५९०; २, ३४६; ४, ८; १२.

भारती<sup>१</sup>- पा ४, १, १७६.

भारतेय- पा ४, १, १२३.

भरत-द्वादशाह<sup>१</sup>- हः आश्रौ १०, ५, ८; काश्रौ २४, ७, ११;

आपश्रौ २१, १४, १५; वौश्रौ १६, ३२: ८, २६, २०: ७; ८; -हा: लुसू २, १५: १.

भरत(त-ऋ)र्षभ- ऋम शांश्रौ १५, २५, १<sup>१</sup>.

ऋभरत-वत् काश्रौ ३, २, ७; आपश्रौ २, १६, ५; वौश्रौ १, १५: २९; १६, २: २३; २४, २८: ३३; भाश्रौ २, १५, ८; माश्रौ १, ३, १, २६; वाश्रौ १, ३, ४, १८; हिश्रौ २, १, ५०.

भरथ<sup>१</sup>- पाड ३, ११४.

भरमाण- ऋणः या ५, ४<sup>१</sup>.

भरिअत्- पा ७, ४, ६५; -ऋअत् आपमं २, ११, २५; -अतम् वाधूश्रौ ३, ४८: २<sup>१</sup>.

भरिमन्- पाड ४, १४८.

भरिण्यत्- ऋव्यन्ती तैप्रा ४, १९<sup>१</sup>.

भरीमन्<sup>१</sup>- पाडभो २, १, २९७; -ऋमनि: वौश्रौ १४, १४: ३५; द्राश्रौ ११, ४, ९; लाश्रौ ४, ४, ८; अत्राय ४, १.

भर्तव्य- ऋव्य: गौध १०, ६०; १८, ३५; या ४, २६; २, १०; -ऋव्यम् कागृ ३, १०; मागृ १, २, १७; वागृ २, १७; -व्या: विध १५, ३३; -व्यौ गौध २८, ४४.

ऋभर्तुम् आपश्रौ ६, १९, ७; १५, १०, ७; वौश्रौ.

ऋभर्तु<sup>१</sup>- ऋतैरि भागृ ३, १: ४; शंघ; -र्ता शांश्रौ ८, १७, १<sup>१</sup>; वौश्रौ:

a) = देश-विशेष- । तस्येदमीयः अण् प्र. । b) = [भरद्वाज-पुत्री-] रात्रि- । c) = ऋत्- ।

d) = शाखा-विशेष- । e) = पक्षिणी-विशेष- । f) तस्येदमीयः लुञ् प्र. (पा ४, ३, १२६) । g) ऋजः कुं इति पाठः? यनि. शोधः । h) मलो. कस. । i) ऋवा इति पाठः? यनि. शोधः (तु. शांश्रौ) । j) = सूक्त-विशेष- (शौ २, १२) । मलो. कस. । k) विप. > नाप. (अग्नि-, आदित्य- प्रभृ.) । विशेषः टि. द्र. । l) वैप १ द्र. ।

m) = देश-विशेष- । n) व्यप. । o) = आयुधनीविसंघविशेष- । p) = ऋत्विज्- ।

q) बहु. < भारत- । r) = प्रन्ध-विशेष- । s) = [तद्देशजा-] कन्या- । t) = ऋतु-विशेष- । u) वैप १.

निर्दिष्टानां समावेशः द्र. ।

या १३, ५; -तारः आपमं २,  
२, १०<sup>a</sup>; काट्ट ४२, ११<sup>b</sup>;  
वौट्ट २, ५, १४<sup>b</sup>; वौपि ३, २,  
३६; जैट्ट १, १२: ४८<sup>b</sup>; -तारम्  
आपथौ १९, १६, २०<sup>b</sup>; आपथः  
-तारो या १३, ५<sup>c</sup>; -तुः आपथि  
२, ७, ६: १; ३, ७, ३: २०<sup>c</sup>;  
काट्टः; -तारिभिः<sup>d</sup> कौट्ट ३, १५,  
५: शांठ ३, १३, ५; -तृन् वैट्ट  
६७: ८; माट्ट २, १४, १५; -त्रै  
शंघ १८९.  
तृभ्रिः -त्रिं कौट्ट १०६, ७;  
-त्रिभिः<sup>d</sup> आपमं २, १९, ३;  
आपथि ३, १, १: १५; -त्रिम्  
आपथौ ५, २, १; -त्र्यः भाशि  
६६.  
भर्तृ-भ(क्त>)क्ता- -क्त्या कप्र  
२, १०, ३.  
भर्तृ-वध- -वधः वाध २८, ७.  
भर्तृ-विप्रवास- -से हिय २, ३,  
३०.  
भर्तृ-सकाश- -शम् वाध: १७,  
७६.  
भर्तृ-सूक्त- -क्तेन<sup>e</sup> वौपि २, २,  
३; ह्यि १९: ७.  
भर्तृ-स्थिता- -त्ता आज्यो ७,  
१९.  
भर्तृ-हित- -ते वौध २, २, ४८.  
तृभर्मन्<sup>f</sup>- -मं निघ १, २<sup>g</sup>; -र्मणे  
या ७, २५.  
नार<sup>h</sup>- -रम् तृआथौ १०, ८, १२<sup>f</sup>;  
१३<sup>f</sup>; शांथौ; अप ७१, १५, ७.  
नार-तप्त- -स्तय वौध २, ३, ५०.

भार-भरा(र-आ)क्रान्त- -न्ता:  
याशि २, ६६.  
भार-हार- -रः या १, १८<sup>g</sup>.  
भारा(र-अ)भिनिहत- -तस्य  
आपथ २, ११, ७; हिय २, ४,  
२३.  
भारिन्- > षि-वार्युपिक-  
तस्कर -राणाम् सुध २६.  
भारक- -काः वैट्ट ५, २: १३.  
भारण- (> षिक- पा.) पाग ४,  
४, १६.  
भभारा- पाग ३, ३, १०४.  
भा(र्थे>)र्या- -र्यया वौपि २, ७,  
१०; जैट्ट १, २१: ७; कप्र; -र्या  
आथौ ३, १३, १२; वार्थौ; -र्याः  
काथौ २०, ८, २४; आपथि;  
-र्याम् आथौ २, १६, २५;  
आपथौ; -र्यायाः ह्यि ३, १,  
२८; शांठ; -र्यायाम् आपथि २,  
७, ४: ३; वौट्ट ४, ११, १; कप्र;  
-र्यायै आथौ १२, ९, ९; आपथौ  
२२, २, १६; ह्यि १७, १, ३२;  
-र्यासु शंघ ३६७; ३६८; विध  
२२, ४३; -र्यै आपथि २, ७, ३: १.  
भार्या-नो- -नोषु काथौ २५,  
४, ३५.  
भार्या-जित- -तस्य वाध १४,  
११.  
भार्या(र्या-अ)तिक्रमण<sup>h</sup>- -णम्  
विध ५, १९२<sup>i</sup>.  
भार्या-त्व- -त्वम् विध ४४, ४५.  
भार्या(र्या आ)दि- -दिः वौध  
२, २, ७५; गौध ५, ७.

भार्या-पति- पाग २, २, ३१.  
भार्या-पिण्ड- -ण्डम् शंघ १८९.  
भार्या-पुत्र- -त्रैः सु १८, ५.  
भार्या-मय- -यम् वैध १, ९,  
१५.  
भार्या-संयुक्त- -क्तम् मीत् ६,  
८, १३.  
भार्या-संज्ञा-> षिता- -त्ता  
आपथि ३, १०, १: २<sup>j</sup>.  
भार्या-संज्ञक-> षिका<sup>k</sup>- -का  
वौपि ३, ५, १<sup>l</sup>.  
भार्यो(र्या-ऊ)ढ<sup>k</sup>- पाग २, २, ३७.  
भार्यो(र्या-उ)पयमन- -नम्  
आपथि १, ६, ३: ६८.  
भृत<sup>m</sup>- -तात् विध ३७, २१.  
भृत-क- -कः विध ५, १५३;  
-कम् विध ५, १५७.  
भृतक-दोष- -पात् विध ५,  
१५९.  
भृतका(क-अ)ध्यापक<sup>n</sup>- -कः  
शंघ ३८: -कात् विध ८२, २०.  
भृतका(क-अ)ध्यापन<sup>n</sup>- -नम्  
विध ३७, २०.  
भृतका(क-अ)ध्यापित-  
-तान् विध ८२, २१.  
तृभृतकण्व<sup>o</sup>- -ण्वः अप १, ३९,  
५; अशां ९, ५.  
भृत-त्व- -त्वात् मीत् १२, १,  
३२.  
भृत-पत्नी- -त्न्यः वाध १९,  
२४.  
भृति<sup>p</sup>- पाग ४, ४, १२<sup>q</sup>; -तिम्  
आपथौ १०, १८, ४; माथौ २,

a) पाभे. वैप २, ३२. धर्तारः मंत्रा १, ६, २८ टि. द्र. । b) = (भर्तृ-सूक्तेन [तृआ ३, १४] ह्यमाना-  
आहुति- । c) कप्र. भर्तुः सूक्तेन <> भर्तृसूक्तेन इति पाभे. । d) सग. भर्तृभिः <> भर्त्रीभिः <> धर्त्रीभिः  
(परि.) इति पाभे. । e) वैप १ द्र. । f) = हिरण्य- । g) पाभे. वैप १, २३७७ d द्र. । h) नाप. (आत-  
तादि-विशेष- ) । उप. कर्तारि क्तु. । i) षमिणम् इति जसं. । j) परस्परं पाभे. । k) यत्. । l) = भृति-, सेवक- ।  
m) कस. । n) = उपपातक-विशेष- । त्तु. । o) अर्थः व्यु. च? । p) वृ. पागम. ।



१,३,१२; ६, १, ४, २६; वैश्रौ  
१२, १४ : १; विध ५, १५३;  
-तौ पा ३,२,२२.

भार्तिक- पा ४,४,१२.

भृति-प्रत्यय-पूर्वपद- -दात्  
पावा ५,४,१९६.

भृति-वचन- -नात् मीस् १०,  
२,२६.

भृत्य<sup>a</sup>- पा ३, १, ११२; -त्याः  
कौस् ७६,२९; १४०, १३; अप  
१९,३, २; हिघ २, १, १२५<sup>b</sup>;  
-त्यान् विध ५७,१३; ६७,४२;  
-त्यानाम् आपघ २, २६, १;  
हिघ २,५, १९६; आज्यो ४,८;  
-त्ये आपघ २, २६, २२; हिघ  
२, ५, २१७; -त्येषु विध ६७,  
४१; -त्यैः विध ६७, ३७; गौघ  
५,४५.

भृत्य-जना(न-अ)वशिष्ट- -ष्टम्  
वौघ २,३,१८.

भृत्य-पक्ष- -क्षाः शंघ २५२.

भृत्य-भरण- -णम् गौघ १०,  
५४.

भृत्या(त्य-अ)तिथि- -थीनाम्  
वौघ २,३,१७.

भृत्या(त्य-अ)दि- -दिषु अप  
७२,३,१२.

भृत्या- पा ३, ३, ९९; -त्याम्  
या १४,२५१.

भृत्वा वौश्रौ २२,३ : ६; माश्रौ.

भ्रियमाण- -णे आपश्रौ १६, ११,  
११; वाश्रौ २, १, २, ३१; वैश्रौ  
१८,९ : १२; ११ : १ हिश्रौ ११,  
४,११; १२; १३; १४.

√भृ (=√हृ [दीर्घ]) > भृगि- >

√भृगीय, †भृगीयते अप  
४८,२६; निघ २,१२०.

भृ (=भृ-)>भृ-कु (टि>)टी-  
पावाग ६,३,४१.

√भृश्र पाधा. चुरा. उभ. भाषार्थे.

√भृक्ष<sup>d</sup> पाधा. भ्रा. उभ. अदने.

भृगु<sup>e</sup>- पाठ १,२८; पाग ७,३, ५३;

-गवः<sup>f</sup> †आपश्रौ १३, २१, ३;

२४, ६, ९; वौश्रौ; †अप<sup>g</sup> ४८,

१३४; १३९; वृदे<sup>h</sup> १, १२८;

६, १५६; ८, १२५; १नघ ५,

५१<sup>i</sup>; या ४,२३१; ११, १८<sup>j</sup>;

१९<sup>k</sup>; -गुः आश्रौ ६, ३, १<sup>l</sup>;

शाश्रौ; या ३,१७४; -†गुभिः<sup>m</sup>

आपश्रौ ४,१२,१०; १७,२३,९;

वौश्रौ; -†गुभ्यः<sup>n</sup> आमिगृ १,

२,२ : ११; वौगृ ३,९,३; भागृ

३,९; ११; हिगृ २,१९,१; -गुम्

वैगृ १, ४ : १६; अप ४३, ३,

१७; ६२,१,१; ७०, १,१; ७; ८,

१; -†गूगाम्<sup>o</sup> काश्रौ २,४,३७;

आपश्रौ; -गून्<sup>p</sup> हिश्रौ २१, ३,

७; आमगृ २, ५, ३:३२<sup>q</sup>; वौगृ

३, ७, २१<sup>r</sup>; शंघ ११६ : ५६;

-गोः अप ६३,४,४; आज्यो ९,

१; -गौ आज्यो ६,१२<sup>s</sup>.

भार्गव<sup>t</sup>- -व आश्रौ १२,१०,

६-१३; आपश्रौ; -वः शाश्रौ

१५,१२,२; काश्रौ; अप ५१,१,

४<sup>u</sup>; आज्यो ८,१<sup>v</sup>; -वम् वौश्रौ

२२,२० : १८; दाश्रौ २,२,२२<sup>w</sup>;

लाश्रौ १, ६, २०<sup>x</sup>; जैगृ २,९ :

१०<sup>y</sup>; अग; -वस्य आपश्रौ

५, ११, ७; भाश्रौ; -वाः वैश्रौ  
१२, १ : १९; -वाय कागृ ४,  
२०<sup>z</sup>; अप २५,१,२; -वैः अप  
४६,२,३.

भार्गवी<sup>aa</sup>- -वी अशां

१६, १; वृदे ४, ११<sup>ab</sup>;

-वीम् अशां १७, १; -व्याम् अशां

१८,२; १९,१.

भार्गव-जामदग्न्य-वत्स-

-त्सानाम् वैध ४,२,१.

भार्गव-भौमा(म-अ)र्क-

-र्काः अप ६८,१,३.

भार्गव-शासन- -नम् कप्र

३,८,१०.

भृगु-युत्र- -त्राः अप ५२,५,४.

भृगु-भाषित- -त्तम् अप ६९,

८,६.

भृगु-वत् आपश्रौ २४, ५, १२××;

वौश्रौप्र.

भृगु-वत्सा(त्स-२आ)प्रायण- -णेपु

पा ४,१,१०२.

भृगु-शुनक-वसिष्ठ- -घानाम् मीस्

६,६,२६.

भृगु(गु-अ)ङ्गिरस<sup>aa</sup>- -रसः वौश्रौप्र

१ : ६; कौस् ९४, ४; -रसाम्

वौश्रौ २,१६ : ४३; वौश्रौप्र २ :

५; वाश्रौ; -रसोः अप ३३, २,

२; -राः अश्रभू २; अश्र १,

१२; २५××; -रोभ्यः कौस्

१३२, ६<sup>ab</sup>.

भार्गवाङ्गिरस<sup>aa</sup>- -सः वाश्रौ

१,४,३ : १.

भृग्वङ्गिरः-प्रोक्त- -क्तैः अप ४६,

७,१.

a) = सेवक- । b) पाप्मे. पृ १८४२ d द्र. c) हृणीयते इति दे. । d) तु. BPG. । e) वैप १-

द्र. । f) बहु. <भार्गव- । g) = (माध्यमिक-) देवगणाऽन्यतम- । h) = शुक्र-वार- । i) = शुक्र-ग्रह- ।

j) = साम-विशेष- । k) = महा-शान्ति- । l) व्यप. । m) व्यप. (ऋषि-, [तद्दृष्ट-] अथर्ववेद-) ।

मलो. कस. वा दस. वा । n) अणि प्र. उभयपदवृद्धिः ।

भृग्वह्निरो-नाण- -गेपु वौश्रौप्र  
२ : ६.  
भृग्वह्निरो-रूप- -पम् अप ३७,  
१८, ११.  
भृग्वह्निरो-रूपधारिन्- -रिणे  
अप ३७, १, १.  
भृग्वह्निरो-विद्- -वित् कौसू  
९४, ३; अप ४४, २, ४; ७०,  
१, ६; -विदः कौसू ६३, ३;  
-विदम् अप ३, १, १३; ३, ६;  
७२, ४, ६; -विदा वैताश्रौ १, ५.  
२भृगु<sup>५</sup>-> ण्यु-तुक्- -ञ्जे शंघ १९४;  
विध ८५, १६.  
भृगु-पतन-> ण-सप्राण<sup>६</sup>-देशा-  
न्तर-मृत- -तानाम् काघ  
२७४ : १.  
भृग्व(गु-अ)मि-जल-संग्राम- -मेपु  
नुध १७.  
भृग्व(गु-अ)ग्न्य(मि-अ)नाशका-  
(क-अ)म्यु-संग्राम-विद्युन्-नृप-  
हृत्- -तानाम् विध २२, ४७.  
भृङ्ग, ङ्गा<sup>७</sup>- पाठ १, १२५; पाग ४,  
१, ४१; -ङ्गाः अप्रा ३, ४, ११.  
भृङ्गी- पा ४, १, ४१.  
भृङ्गार<sup>८</sup>- पाठ ३, १३६; -रः अप ६८,  
२, ३०; -राः अप ६४, ७, ६.  
भृङ्गार-यात्र- -त्रेपु विध ९९, १३.  
भृङ्गारो(र-उ)द्भृतोर्वरा-उज्ज्वद्वैक-  
पशु-कुमारी-मीन- -नान् विध  
६३, ३३६.

√भृज्<sup>५</sup> पाधा. भ्वा. आत्म. भर्जने,  
भर्जन्ति वौश्रौ १३, २५ : १६;  
१७, ३१ : १३; भाश्रौ ८, १६,  
१२.  
भर्जयति वैश्रौ ११, १ : ९;  
हिश्रौ ५, ४, २३; ८, १, ५४;  
भर्जयन्ति वौश्रौ ५, ११ : १६;  
भाश्रौ ८, १६, १; भर्जयेत् भाश्रौ  
८, ५, २०; कप्र ३, ४, ३.  
भर्जन- -नात् आपश्रौ १६, ९, ८;  
हिश्रौ ३, ४, २६; ११, ३, १२.  
भर्जना(न-अ)र्थे -र्थम् भाश्रौ  
८, १६, १; हिश्रौ ५, ४, २२;  
-र्थे आपश्रौ १२, ४, १; भाश्रौ  
८, ५, १४; वैश्रौ १५, ४ : ८;  
१०; हिश्रौ ८, १, ४९.  
भर्जयित्वा वैश्रौ १५, ५ : १.  
भृग्ण- -ण्णान् वौश्रौ १७, ३१ : १६.  
भृज्यमान, ना- -नः या ३, १७;  
-नासु माश्रौ २, ३, २, ६.  
√भृज्(दाँलौ)> १भर्ग<sup>९</sup>- नीः शाश्रौ  
५, १, १०१; द्राश्रौ<sup>१</sup> ७, ४, ९;  
११-१३; लाश्रौ<sup>२</sup> ३, ४, ८; १०-  
१२; अप ४८, ९११<sup>३</sup>; -र्गम्  
शाश्रौ ५, १, १०<sup>४</sup>; आपश्रौ २१,  
२२, ६; -र्गात्<sup>५</sup> द्राश्रौ ९, ३,  
१०; लाश्रौ ३, ६, ३०.  
२भर्ग(वप्रा.)- पाठभो २, २, ५३<sup>६</sup>;  
पाग ४, १, १७६<sup>७</sup>; -र्गः<sup>८</sup> ऋअ २,  
८, ६०; साअ; अअ २०, ११८<sup>९</sup>।

भा(गिं>)र्गी- पा ४, १,  
१७६.  
भार्गायण- पा ४, १, १११.  
भर्गस्<sup>९</sup>- पाठ ४, २१६; -र्गीः  
आश्रौ ६, १२, २<sup>१</sup>; शाश्रौ २,  
१०, २; १८, २०, ८; काश्रौ १३,  
१, १२<sup>२</sup>; आपश्रौ १०, १,  
४<sup>३</sup>; वौश्रौ २, ४ : २२<sup>४</sup>;  
३, ९ : ४; १७, ४३ : १०;  
माश्रौ ५, २, १५, २<sup>५</sup>; वाश्रौ १,  
१, ५, २<sup>६</sup>; हिश्रौ ७, १, ११<sup>७</sup>;  
वैताश्रौ २१, ९; आश्रु १, २३,  
१५<sup>८</sup>; आश्रिण.  
√भृज्ज, भृज्ज (= √भृज्स्)<sup>९</sup> पाधा.  
तुदा. उभ. पाके, भृजति वाश्रौ  
१, ७, ४, १६; माश्रु १, ११, ३;  
गोश्रु ३, ७, ७; अप ४८, १९१<sup>६</sup>.  
भृज्जन<sup>९</sup>- पाठ २, ८०.  
भृज्ज्यमा(न>)ना- -नासु माश्रौ  
१, ७, ६, ८<sup>१</sup>.  
भृष्ट, ष्टा- -ष्टाः भाश्रौ ८, ५, १८<sup>२</sup>.  
कप्र ३, ९, १<sup>३</sup>.  
भृष्ट-पिष्ट- -ष्टम् कौसू २२, १.  
भृष्ट<sup>४</sup>- -ष्टात् माश्रौ १, ५, ४, ४;  
६, १, ३, २७; वाश्रौ १, ४, ३, ६;  
कौसू ६९, ८; -ष्टे कौसू ४७,  
२८; ४९, २१.  
भृष्ट<sup>५</sup>- पाठ ४, १६०; -ष्टात्  
काश्रु २५, ८; -ष्टे या ५, १२.  
भृष्ट-ज- पा ६, २, ८२.

a) उप. <√विद् [ज्ञानि] । b) नाप. ([अतट-]प्रपात-) । c) = [केदारादि-साहचर्यात्] तीर्थ-  
विशेष- । d) पाठः? 'संग्राम' इति शोधः (तु. सप्र. विध २२, ४७) । e) वैप १ द. । f) = सुवर्णमय-यात्र- ।  
g) 'चदपशु' इति जीसं. । h) पावा १, १, ४७ परानृष्टः द्र. । i) सपा. भृज्य<>भृज्य< इति पाभे. ।  
j) = नाम-विशेष- । k) सुवर्ण-नामन्- । l) पाभे. वैप २, ३खं. भर्गस्-> -र्गः तां १, १, १ टि. द. ।  
m) <√भृ । n) = देश-विशेष- । o) = ऋषि-विशेष- । p) 'गम्' इति पाठः? यनि. शोधः । q) पागे.  
वैप १, २, ३७८ i द्र. । r) वर्गः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. चौसं.) । s) पा ६, १, १६; १७; ४, ४७; ७,  
२, ४९; ८, २, ३६ पावा ६, ४, ४७ परानृष्टः द्र. । t) धा. हिंसायां वृत्तिः । u) अष्टाः इति पाठः? यनि.  
शोधः । v) एकतरत्र मष्टाः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. अस्तृ.) । w) = नृज्जन-

आप्ट्म-इन्ध- पावा ६, ३, ७०.  
 भृज्यकण्ठ<sup>३</sup>-> ण्ठ-माहिष्य-वैश्य-  
 वैदेहक- कान् गौध ४, २०.  
 √भृज् पाधा. तुदा. पर. निमज्जने.  
 भृणि-, √भृणीच √भृ (दीप्तौ) द्र.  
 भृत-, भृत-क- प्रभृ. √भृ (वधा.) द्र.  
 √भृम्, भ्रम् (वधा.)<sup>३</sup> पाधा. भ्वा.  
 पर. चलने; दिवा. पर. अन-  
 वस्थाने, भ्रमते अप २९, २, ३;  
 ७०<sup>३</sup>, २३, २; भ्रमति वैगृ ५, १ :  
 १८; अप ५८<sup>३</sup>, ३, ३; ६८, ३,  
 १२<sup>३</sup>, ७२, १, ५; निघ २, १४<sup>३</sup>;  
 भ्रमन्ति अप ५२, ४, १; ६८, १,  
 ४७; ७०<sup>३</sup>, ११, २०; २२; भ्रमेत्  
 आमिगृ ३, ६, ४ : ९.  
 भ्रम्यात् पागृ ३, ७, ३; १४, १३.  
 भ्रमयति अप १८<sup>३</sup>, १, १०;  
 भ्रमयेत् अप २२, ८, २.  
 भृम<sup>३</sup> - मम् ऋप्रा ७, ४०<sup>३</sup>.  
 भृमि<sup>३</sup> - पाठ ४, १२१; -मयः  
 आश्रौ ७, ९, २<sup>३</sup>; शाश्रौ १२,  
 ११, २४<sup>३</sup>; या ९, २४<sup>३</sup>; -<sup>३</sup>मिः  
 द्राश्रौ ७, २, ७; लाश्रौ ३, २, ७;  
 निघ ४, ३; या ६, २०<sup>३</sup>.  
 भृम्य(मि-अ)श्च<sup>३</sup> - -श्चः या ९,  
 २४.  
 भार्म्यश्च - -श्च आश्रौ  
 १२, १२, १; आपश्रौ २४, ८, ७; ८;  
 वौश्रौप्र २५:३; वैध ४, ३, ९१<sup>६</sup>;  
 -श्चः ऋअ २, १०, १०२; वृदे  
 ६, ४६; ८, १२; या ९, २३; २४.  
 भृम्यश्च-वत् आपश्रौ २४, ८,

७; ८; वौश्रौप्र २५:४; वैध ४, ३,  
 ९<sup>६</sup>.  
 भ्रम- पा ३, १, १४०; -मात् काशु  
 ७, ४<sup>३</sup>.  
 भ्रमत्- पाग ३, १, १२; -मन् वैगृ  
 ५, १ : २६; -मन्तः अप ६८,  
 १, ४६; ७०<sup>३</sup>, ७, ४.  
 √भ्रमाय पा ३, १, १२.  
 भ्रमयत्- -यन् कौसू ९९, २<sup>३</sup>.  
 भ्रमर- पाठ ३, १३२; -रः शंघ  
 ३७७ : १७.  
 भ्रामर- पा ४, ३, ११९.  
 भ्रमि- पाठ ४, १२१.  
 भ्रमिन्- पा ३, २, १४१.  
 भ्रान्त-> ण्त-चित्ता(त-आ)प्लुते-  
 (त-ई)क्षण<sup>३</sup> - -णाः अप ६८, १,  
 ४०.  
 भ्रान्ति- -न्त्या याशि २, ६८.  
 भ्राम- पा ३, १, १४०.  
 भ्रामक- -कः अप २२, ७, ५.  
 भ्रामयित्वा वैश्रौ १, २ : ४; ३ : २.  
 √भृश् पाधा. दिवा. पर. अधःपतने.  
 शृश<sup>३</sup> - पाठभो २, ३, १४१; पाग ३,  
 १, १२; ५, १, १२३; ८, १, ६७;  
 -शम् अप ३०<sup>३</sup>, १, ७; ५३, १,  
 ४×४; वृदे ४, २३; या.  
 भाश्य- पा ५, १, १२३.  
 शृश-ता-, शृश-त्व- पा ५, १, १२३,  
 शृश-दण्ड<sup>३</sup> - -ण्डः विध ३, ९६.  
 शृश-दारुण- -णाः अप ५२, ८, ३.  
 √शृशाय पा ३, १, १२.  
 अशिमन्- पा ५, १, १२३.

२भृ(श>)शा<sup>३</sup> - -शा कागृ २८, ४<sup>३</sup>.  
 भृष्टि<sup>३</sup> - -ष्टिः कौसू १६, २९<sup>३</sup>; -ष्टिन्  
 अशां २१, १<sup>३</sup>.  
 ?भृष्टिमतः साअ १, ३२७.  
 भृष्टि-ल<sup>३</sup> - -लः माश्रौ १, २, १, ७;  
 -लम् वाश्रौ १, ३, १, ३१.  
 √भृ<sup>३</sup> पाधा. क्वा. पर. भर्त्सने, भरणे<sup>३</sup>  
 हृच्छने<sup>३</sup>  
 भेक- पाठ ३, ४३.  
 भेत्तवै, भेतृ-, भेद- प्रभृ. √भिद् द्र.  
 भेर- पाठ २, २८.  
 भेरि, री<sup>३</sup> - पाठ ४, ६६<sup>३</sup>; -र्यः अप  
 ७०<sup>३</sup>, २, २.  
 भेरी-सुरज-गोमुख- -खाः अप ७१,  
 १५, ६.  
 भेर्या(री-आ)घात-वत् पावा १, १, ७०  
 भेल- पाठ २, २८.  
 √भेषू पाधा. भ्वा. उभ. भये, गतौ<sup>३</sup>.  
 भेषज- प्रभृ. १मिपञ्-द्र.  
 भैक्ष- प्रभृ. √भिक्ष द्र.  
 भैक्षवाह<sup>३</sup> - -हाः वौश्रौप्र २४: २<sup>३</sup>.  
 भैक्षुक-, भैक्ष्य- प्रभृ. √भिक् द्र.  
 भैतायनि- २भीत-द्र.  
 भैदिक- √भिद् द्र.  
 भैमगव<sup>३</sup> - -वः वौश्रौप्र २२: १.  
 भैमसेनि-, भैरव- √भी द्र.  
 भैलि<sup>३</sup> - -लिः वौश्रौप्र २४: २.  
 श्रभैपज-, श्रभैपज्य- १मिपञ्-द्र.  
 २भैपज-, २भैपज्य- २मिपञ्-द्र.  
 भैष्णज-, ञ्य- २मिष्णज्-द्र.  
 भोक्तव्य- प्रभृ., १भोग- √भुज्  
 (पालना<sup>३</sup>) द्र.

a) =जाति-विशेष-। b) या ६, २० पा ३, १, ७०; ६, ४, १२४; ७, ३, ७४ परामृष्टः द्र.। c) वैप १ द्र.।  
 d) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र.। e) विप. (अश्व-। f) ऋपि-विशेष-। वस.। g) यक. धार्या<sup>३</sup> इति धार्या<sup>३</sup>  
 इति च पाठौ? यनि. शोधः (तु. आश्रौ. प्रभृ.)। h) भाप.। i) वस.>कस.>वस.। j) =अति-शय-। -शम् इति  
 वा. क्वि.। k) वस.। l) विप. (तन्-। अर्थः व्यु. च?। m) नाप.। अर्थः व्यु. च?। n) =पवि-  
 इति दारिलः। o) =वनस्पति विशेष-। p) पाप्र. मत्वर्थीयः लच् प्र. उस्सं. (पा ५, २, ९७)। g) पा ७, ३, ८०  
 परामृष्टः द्र.। r) तु. BPG.। s) =वाच-विशेष-। t) <√भी। u) व्यप.। v) भैक्षाव<sup>३</sup> इति संस्कृतः टि.।  
 वैप४-तृ-५४

२भोग- √भुज् (कौटिल्य) द्र.  
 ३भोग- > २भोग-वत्- (> °वी<sup>०</sup>-  
 पा.) पाग ४, १, ७३.  
 भोगक<sup>०</sup>- (> भौगक- पा.) पाग २,  
 ४, ६७; ४, १, १०४.  
 भोगवत्-, भोग्य- ३भोज- √भुज्  
 (पालना<sup>०</sup>) द्र.  
 २भोज<sup>०</sup>- (> भोज्या- पा.) पाग ४,  
 १, ८०.  
 भौजि<sup>०</sup>- (> १भोजीय- पा.)  
 पाग ४, २, १३८.  
 भोज-दुहित्-, भोज-पुत्री- पावा  
 ६, ३, ६९.  
 भोजा(ज-आख्या >) ख्य- ख्यः  
 वैध ३, ११, ६.  
 भोजक-, भोजन- प्रभृ. √भुज्  
 (पालना<sup>०</sup>) द्र.  
 भोजसिन्<sup>०</sup>- सिनाम् वौश्रौप्र २६:  
 २.  
 भोजि<sup>०</sup>- (> २भोजीय-).  
 भोज्य √भुज् (पालना<sup>०</sup>) द्र.  
 भोस्<sup>०</sup>- भोः आश्रौ ८, १४, १५;  
 वौश्रौ १८, ४६ : १६; आगृ;  
 आपण ११, ८<sup>०</sup>; हिण १, ६,  
 १०<sup>०</sup>; भोः आगृ १, २१, ४<sup>०</sup>;  
 आगृ २, ५, ११<sup>०</sup>; ७, ८<sup>०</sup> × ×;  
 पाण; पावा ८, ३, १.  
 भो-भगो-भवो-अ-पूर्व- र्वस्य पा  
 ८, ३, १७.  
 भो-राजन्य-विद्- -विदाम् पावा  
 ८, २, ८३.  
 भोः-शब्दा(ब्-अ)न्त<sup>०</sup>- -न्तम्

विध २८, १७.  
 भौजिष्य- √भुज् (पालना<sup>०</sup>) द्र.  
 भौत-, भौतिक- प्रभृ. √भू द्र.  
 भौत्य-, भौत्यायनी- २भूत- द्र.  
 भौम- प्रभृ., भौमिक- √भू द्र.  
 भौयसि-, भौयि- २भूयस्- द्र.  
 भौर- २भूरि- द्र.  
 भौरि<sup>०</sup>- (> °री- पा.) पाग ४, १, ४१.  
 भौरिकि<sup>०</sup>- पाग ४, १, ४१<sup>१</sup>; ८०;  
 १५४; २, ५४; ११६.  
 भौरिकी- पा ४, १, ४१.  
 भौरिकायणि- पा ४, १, १५४.  
 भौरिकिका-, °की- पा ४, २, ११६.  
 भौरिकि-विध- पा ४, २, ५४.  
 भौरिक्या- पा ४, १, ८०.  
 भौलिकि<sup>०</sup>- पाग ४, १, ४१; ८०;  
 १५४; २, ५४.  
 भौलिकी- पा ४, १, ४१.  
 भौलिकायनि- पा ४, १, १५४.  
 भौलिकि-विध- पा ४, २, ५४.  
 भौलिक्या- पा ४, १, ८०.  
 भौलिङ्गि<sup>०</sup>- पाग २, ४, ५९; ४, १, ४१;  
 २, ११६.  
 भौलिङ्गी- पा ४, १, ४१.  
 भौलिङ्गिका-, °की- पा ४, २,  
 ११६.  
 भौवन-, °नि- √भू द्र.  
 भौवन्यव- भुवन्यु- द्र.  
 भौवायन- √भू द्र.  
 √भ्यस् पावा. भ्वा. आत्म. भ्ये,  
 भ्यसते निघ ३, २९<sup>०</sup>; या ३,  
 २१; अभ्यसेताम् षैया ३, २१;

१०, १०.  
 विभ्यस्यत्- -स्यन्तः या १, १०<sup>०</sup>.  
 अ- (=१भू-)> अ-कुंस<sup>१</sup>-, अ-कुटि<sup>०</sup>-  
 पावाग ६, ३, ६०.  
 √अंश्<sup>१</sup> पावा. भ्वा. आत्म. अत्रलंसने;  
 दिवा. पर. अधःपतने, अंशते  
 तैत्रा १६, २२<sup>०</sup>.  
 अशत् वौश्रौ १८, १६ : १५<sup>०</sup>.  
 अंश->अंश-कला<sup>०</sup> (> °ला  
 √कृ पा.) पाग १, ४, ६१.  
 अष्ट- -ष्टः शैशि १५ १<sup>०</sup>; माशि ३,  
 २<sup>०</sup>; -ष्टम् बाध ६, २; -ष्टाः  
 अप ४१, ४, ३.  
 √अंस पावा. भ्वा. आत्म. अत्रलंसने-  
 अंस->अंस-कला (> °ला √कृ  
 पा.) अंश-कला टि. द्र.  
 अ-कुंस-, °कुटि- अ- द्र.  
 √अक्ष पावा. भ्वा. उभ. अक्षने.  
 √अज्ज् √मृज्ज् द्र.  
 √अण् पावा. भ्वा. पर. शब्दे.  
 √अम्, अम- प्रभृ. √\*मृम् द्र.  
 अशिमन्- १मृश- द्र.  
 अष्ट- √अंश् द्र.  
 अष्टक<sup>०</sup>- पाग २, ४, ६९; -काः वौश्रौप्र  
 १९ : २.  
 अष्टक-कपिष्ठल- पाग २, ४, ६९.  
 अष्ट- √मृज्ज् द्र.  
 अस्ता<sup>०</sup>- -स्ताम् आपश्रौ १३, १९, ८.  
 √भ्राज्<sup>०</sup> पावा. भ्वा. आत्म. दाँसौ,  
 आजते अप ४८, २०<sup>०</sup>; वृदे १,  
 ९३; निघ १, १६<sup>०</sup>; नाशि २,  
 ८, १९; आजन्ति अप्राय २, ७;

a) व्यप. । व्यु. ? । b) = छत्रिय-विशेष- । c) भोजि- इत्यपि पागम. । d) वैप १ द्र. । e) पाभे.  
 पृ १८४८ k द्र. । f) कस. > वस. । g) तु. पाका. । भौरिकि- इति पाभे. । h) भूरि-क- > यनि. इति  
 पागम. । i) तु. भाण्डा. पासि. च । j) = क्षत्रियधारि-नर्तक- । वस. उप. = भाषण- वा शोभा- वेति पासि.  
 प्रभृ. । k) = श्रु-कुटि- । l) या २, २२; ५, १९ पा १, ३, ९१; ३, १, ५५ परानुष्टः द्र. । m) पाभे. वैप १,  
 २३७९ s द्र. । n) = हिता- (तु. पागम.) । o) तु. पाका. पासि. । अंस<sup>०</sup> इति भाण्डा. प्रभृ., [पक्षे] पासि. ।  
 p) < मस्त्रा- इति भाष्यम् । q) पा ६, ४, १२५; ७, ४, ३; ८, २, ३६ परानुष्टः द्र. ।

†आजत्<sup>a</sup> आमिष्ट १, ५, ४ :  
 ४७; भाग्य १, १९ : ९; हिय १,  
 २२, १४.  
 †आजत्<sup>b</sup>- आजम् वीश्री ६, १२ :  
 ७; जैग्य १, २३ : ६.  
 †आजत्<sup>c</sup>- पा ३, २, १७७; †आद्  
 आपथ्री १६, ३०, १; वैश्री;  
 †आद् वीश्री १९, १० :  
 २६†<sup>d</sup>.  
 †आजिष्ट- †०ष्ट काश्री १२,  
 ३, ६†; -ष्टः शुप्रा २, ४०.  
 †आजत्<sup>e</sup>- †०ज् काश्री ७, ८, २२;  
 आपथ्री १०, २६, १५; वीश्री.  
 आज-भृष्टि<sup>f</sup>- †ष्टिभिः गोय ३,  
 ४, १९†.  
 आज-भृष्णु<sup>g</sup>- †ष्णुः पाय २, ६,  
 १६†.  
 †आजत्<sup>h</sup>-> आज(ज-आ)दि-  
 -दि जैश्रीका ५४.  
 आज(ज-अ)आज- †जयोः निस्र  
 १०, १३ : १; २; -जाभ्याम्  
 जैश्री २६ : १३.  
 †आजत्- †जत् कौस्र ९७, ८; अप  
 ३३, ५, २; ६, ४; अशां १८, २;  
 -जन् वैताश्री १४, १†; -जन्तः  
 आपथ्री १६, १२, १; हिश्री.  
 †आजन्ती- †न्ती सात्र १,  
 ६१६; उनिस्र ६ : १३.  
 आजद्-ऋष्टि<sup>i</sup>- †ष्टयः शांश्री  
 १८, २३, ३†.  
 आजमान- †नः आपथ्री १६, १२,  
 १; वीश्री; -नाः या ३, १५.

†आजस्<sup>b</sup>- †जः वीश्री १३, ३५ :  
 १४; १४, ११ : २६; वाश्री;  
 -जसा या ३, १५; -जसे  
 वीश्री १४, ११ : २३.  
 आजस्-कर<sup>b</sup>- †०र वाश्री ३,  
 २, २, ४†<sup>d</sup>.  
 †आजस्-वत्- †वत्ते आपथ्री  
 १९, २३, ३; वीश्री १३, ३० :  
 ३; ४; १४, ११ : १९†; २१†; १६,  
 १८ : २†; माश्री ५, २, २, १९;  
 -वन्तः या ३, १५; -वन्तम्  
 वीश्री १४, ११ : २२†.  
 आजस्वती- †तीः आपथ्री  
 १६, ११, १३†; -तीभिः वाश्री  
 २, १, २, ३१; वैश्री १८, १० :  
 १०†<sup>l</sup>.  
 †आजस्-विन्- †विन् शांश्री  
 १०, ४, १२; आपथ्री; -वी<sup>m</sup>  
 शांश्री १०, ४, १२†; वीश्री  
 १४, ११ : २१.  
 आजिष्णु- पा ३, २, १३८.  
 आजिनाक्षत्रेय<sup>n</sup>- †याः वीश्रीप्र १९ :  
 ३.  
 आजत्<sup>b</sup>- पाठ २, ९५; पाग ४, १, ३५;  
 ५, १, १३०†; -†०तः वृदे ४,  
 ५२; ऋप्रा १, १०१; -तरः  
 शांश्री १५, २६, १†; वीश्री;  
 -तरम् शांश्री १३, ११, १;  
 माश्री; -तरि वाधूश्री २, १ : २;  
 गौध १८, १९; पा ४, १, १६४;  
 पावा ४, २, २६; -तरौ पाय १,  
 १६, २४; वृदे ७, १५५; या २,

१०; -त्ता आश्री ३, ३, १†;  
 शांश्री; -तुः आपमं २, २२, ५†<sup>p</sup>;  
 शांश्री ५, ९, ६; भाग्य २, २७ :  
 १४†<sup>p</sup>; हिय १, १४, २†<sup>p</sup>;  
 आपध; पा ५, ४, १५७; -तुभिः  
 कौय १, ५, २६†; शांश्री १,  
 ९, ९†; कप्र ३, १, १०; वृदे  
 ७, ७७; -तुषु आपध १, १४,  
 ९†; वृदे ७, ६१; ऋअ २, १०,  
 ५०; -तुणाम् काश्री २२, ११,  
 ११; वैयु; -त्रा सु २१, ४;  
 अप २०, २, ९; -त्रोः काश्री  
 २२, ११, १२; वीश्री १८, ३५ :  
 १२; पाय ३, ७, २.  
 आतुप्-पुत्र- पाग ८, ३, ४८.  
 आतुप्पुत्र-ग्रहण- †गम् पावा  
 ८, ३, ४१.  
 आतु-गामिन्- †मि विध १७, ८;  
 शंघ २९३.  
 आतु-पत्नी- पाग ४, १, ३५;  
 -त्नीनाम् वीध १, २, ३४.  
 आतु-पितृआतु-मातुला(ल-आ)चार्य-  
 (र्य-ऋ)त्विगा(ग्-२आ)घ- †घैः  
 वैध ३, ३, ८.  
 †आतु-पुत्र- †त्राः गौपि १, ४, १.  
 आतुपुत्र-गामिन्- †मि विध  
 १७, ९.  
 †आतु-पुत्र- †त्रौ पा १, २, ६८.  
 आतु-पुत्र-पितृ-धशुर- †राणाम् पावा  
 १, २, ७१.  
 आतु-भगिनी- †नीषु हिध १, ४,  
 ४१†.

a) पामे. पृ ८११ h द्र. । b) वैप १ द्र. । c) पामे. वैप १, १७६९ I द्र. । d) पामे. वैप १,  
 २३८० i द्र. । e) वस. । f) पामे. वैप २, ३४६. मंत्रा १, ७, ६-८ टि. द्र. । g) = साम-विशेष- । घा. अर्थः ? ।  
 .h) उप. टः प्र. उसं. (पा ३, २, २१) । i) पामे. वैप १, २३८० g द्र. । j) पामे. वैप १, २३८० j द्र. ।  
 .k) सप्र. आपथ्री १६, ११, १२ वाश्री २, १, २, ३१ रश्मिवतीः इति, वैश्री १८, १० : ७ रश्मिवतीभिः इति च पामे. ।  
 .l) †जत्र<sup>०</sup> इति पाठः ? यन्ति. शोघः (तु. वाश्री.) । m) पामे. वैप १, २३८० k द्र. । n) व्यप. । o) पृ १८५४  
 आतु- इति नेष्टम् । p) सपा. पाय ३, ७, २ मातुः इति पामे. । q) पामे. पृ १८४१ f द्र. । r) पम. ।

आतृ-भार्या-र्याणाम् नौघ ६, ८.  
 आतृ-मद-मान् हिश्रौ ४,३,१.  
 आतृ-वल-पावा ५,२,११२.  
 आतृ-विही( न>)ना-ना विघ १५,६.  
 १आतृव्य-पा ४,१,१४४.  
 आतृ-स्त्री-काम-माय अप २०,४, २१.  
 आतृ-स्वान-नः आर १,७,८.  
 आतृ-पा ५,१,१२०.  
 आतृ-पा ४,१,१४४.  
 २आतृव्य-पा ४, १, १४५; -व्यः शाश्रौ ४,१२,१०१; १४,४२,६; आपश्रौ; -व्यम् कशाश्रौ १,५, १××; -व्यस्य आपश्रौ ४,१३, ६१; वौश्रौ; -व्याः वौश्रौ २४, २५:१८; अप्राय ३,२; -कत्या-णाम् आपश्रौ ६,२०,२; वाश्रौ १, ५,४,२१; हिश्रौ; -व्याम् शाश्रौ १०, १५, ८१; १४, २३, १; आपश्रौ; -व्याय आपश्रौ ३, १६, ८१; २२, ३, १३; वौश्रौ १३, १०:५१××; हिश्रौ; -व्ये वौश्रौ २,५:४१; १३, १६:२; -व्येण आपश्रौ १२, २१, १९; २२, ५, १६××; वौश्रौ.  
 १आतृव्य-क्षयण-णम् कौत् ४८, १, अअ २,१८; अप २:११.  
 आतृव्य-क्षेत्र-त्रम् आपश्रौ १९, १९, १०; -त्रे हिश्रौ २२, ३, ९.  
 आतृव्य-नावी-वीम् आपश्रौ १९, १९, ३; हिश्रौ २२, २, २६.

१आतृव्यतान् अप ३३, ६, ९१.  
 आतृव्य-तिस्तीर्षा-र्षा आपश्रौ २२, २, ९.  
 आतृव्य-देवता->व(त्य>)त्या-स्या वौश्रौ ३, १७:१८.  
 आतृव्य-पराणुत्ति-त्यै भाशि ३११.  
 आतृव्य-यज्ञ-ज्ञे आपश्रौ १३, ९, ४  
 आतृव्य-वत्-वतः आश्रौ १०, १, ३; काश्रौ; वौश्रौ ७, ७, १०१;  
 -वता आपश्रौ १२, ८, १२;  
 वाश्रौ ३, २, ५, १८; हिश्रौ;  
 -वन्तम् आपश्रौ १८, ९, ९;  
 वाधुश्रौ ४, ९०:६; हिश्रौ;  
 -वान् आश्रौ ९, ५, ११; १०, २, २५××; आपश्रौ.  
 आतृव्य-वध-धम् लाश्रौ ८, ५, ११; निम् ६, १०:२४.  
 आतृव्य-सङ्ख्य-ङ्ख्येषु वौश्र २, १, १९.  
 आतृव्य-ह-हम् अप ३३, ६, ८१;  
 आतृव्य-हन्-हणम् आपश्रौ १६, ३०, १; वैश्रौ १८, २०:४३;  
 हिश्रौ ११, ८, ४; -हा आपश्रौ ११, १२, २; वौश्रौ ६, २८: २८; वैश्रौ १४, ७:१४.  
 आतृव्या(व्य-अ)पनुत्ति-त्यै भाशि ३११.  
 आतृव्ये(व्य-ई)प्सा-प्सायाम् हिश्रौ १७, २, १५.  
 आतृ-आन्ति-वृत्तम् द.  
 १आतृव्याग्न्यव्यय वाश्रौ ३, ४, ३, १८.

आम-आमक-आमर-वृत्तम् द.  
 आमरिन्-री विघ ४५, २६.  
 १आम-पाधा. म्वा. आत्म. दीप्तौ, १आमते अप ४८, २०; निघ १, १६.  
 आश्रयति निघ १, १६१;  
 आश्र-प्रम्. वृत्तम् द.  
 आश्रविन्दु-न्दवः वौश्रौप्र १९:२.  
 आश्रम्-इन्ध-वृत्तम् द.  
 आश्रयमाण-वृत्तम् द.  
 १आश्रि(वधा.) पाधा. कया. पर. भये, भरणे च, १आश्रिणाति अप ४८, १८; निघ २, १२.  
 आश्रमल-पाठना १, १०४.  
 आश्रमि-मिमि भाशि २११.  
 आश्रव->वा(व-अ)क्षिलोम-शिखा-वर्जम् वाध २४, ५०.  
 १आश्रु-पाठ २, ६८; पाग ५, २, २४१;  
 आश्रुवः काश्रौ ७, ३, २७; यादि १, ५५; ५७; आश्रुवि भाशि २११;  
 आश्रुवोः आपश्रु ४, ५; वृदे ८, ११३; ११७; नाशि १, ७, १; आश्रुवौ पाश्रु ३, ६, २; विघ १६, ९२; भाशि १२, ५.  
 आश्रु-कुम्-पावाग ६, ३, ४१; ६०.  
 आश्रु-कुटि-पावाग ६, ३, ६०;  
 आश्रु-कुटि,टी-पावाग ६, ३, ६०;  
 -टीम् विघ ३, ९०.  
 आश्रु-जाह-पा ५, २, २४.  
 १आश्रु-भद्र-  
 आश्रु-नध्य-ध्वम् वैध १, ११, ४.

a) तु. पाम. । b) वैप १ द. । c) वस. । d) पाठः? आतृव्याणाम् इति शोधः (तु. संस्कृतः टि.) । e) पस. उप. भाव. <वृत्त (हिंसायाम्) । f) व्यतः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सप्र. तै ६, ४, ११, १) । g) उप. =संप्राम. । h) उप. डः प्र. उंसं. (पा ३, २, ५०) । i) =अनन्तारिन्द- (तु. ननुः [२, १६१]) । j) पा ३, १, ७०; ६, ४, १२५ परानुत्तः द. । k) धा. क्रीडे वृत्तिः । l) वैप २, ३३. द. । m) पमि. वैप १, २३७९ ८६. । n) =१भू- । o) भूश्रोक्षि इति पाठः? यनि. शोधः । p) भू-भद्र- इति पाठा. ? । q) =अ-कुम्- । r) पस. उप. <वृत्तम् ।

अमध्य-ना<sup>३</sup>- नाः वैध १, १०,  
३; ११, ४.  
अमध्य-नात- -तस्य वैध १,  
११, १०.  
२अ<sup>३</sup>- अुवः चाअ ३८ : १०.  
अ<sup>३</sup>वैय- पा ४, १, १२५.  
✓अ<sup>३</sup>ण पाधा. चुरा. आत्म. आशा-  
विशङ्कयोः  
अ<sup>३</sup>ण<sup>३</sup>- पाठभो २, २, १२३; -णः वौगृ  
१, ७, ६; वैगृ १, १ : १५; -णम्  
वौगृ १, ७, १६; -णानि वाध  
१७, ७१.  
अ<sup>३</sup>ण-ह- -ह्नैव वौश्रौ २७, ९ : ६.  
अ<sup>३</sup>ण-हत्या- -त्या वाध १, २०; ५,  
८; २८, ७; -त्याम् वैगृ ७, १ :  
९; वैध ३, १४, ९; या ६, २७;  
-त्यायाः वौश्रौ २६, १० : २३;  
वाध ५, ८; वौध २, १, ५९; ३,  
७, ३; गौध २४, ९; -त्यायाम्  
वाध २३, ३८; -त्यायै शांश्रौ  
१६, १८, १९; आपश्रौ २०, २२,  
६१<sup>०</sup>; हिश्रौ १४, ५, ४१<sup>०</sup>; वाध  
५, ८<sup>०</sup>; वौध ४, १, १३; १९.  
अ<sup>३</sup>णहत्या-विधि- -धिः वौध ४,  
२, ६.  
अ<sup>३</sup>णहत्या-सम- -सम् वौश्रौ  
२९, ८ : २४.  
अ<sup>३</sup>ण-हन्- पा ३, २, ८७; -ह्ना  
विध ५१, १७; गौध १७, ११;  
-ह्ने आपध १, २९, १; हिध १,  
७, ५७; -हन् वाध ५, ८<sup>०</sup>; १;  
-हनम् वाध २०, २३; २६, ४;  
वौध ४, १, २९; गौध २०, १;

-हनि गौध २१, ९; -हा आमिगृ  
२, ४, ४ : २; वैय.  
अ<sup>३</sup>णनी- -नीम् वौध ४, १,  
२२.  
अ<sup>३</sup>णहल्य- पा ६, ४, १७४; -त्ये  
पाधा ६, ४, १७४.  
अ<sup>३</sup>ण-हनन- -नम् वौध ३, ५, ६;  
६, १८.  
अ<sup>३</sup>मक<sup>३</sup>- -के वौश्रौ २५, ८ : १६.  
अ<sup>३</sup>मुखे<sup>३</sup> वौगृ १, १, २६.  
✓अ<sup>३</sup>ञ्ज पाधा. भ्वा. आत्म. दीप्तौ.  
✓अ<sup>३</sup>पे (वधा.) पाधा. भ्वा. उभ.  
गतौ, अपेते अप ४८, १८<sup>१</sup>; १;  
अपेति निघ २, १२<sup>१</sup>; १.  
अ<sup>३</sup>प- -पः आपश्रौ ९, १६, ४<sup>१</sup>; १४,  
३२, ७<sup>१</sup>; वैश्रौ २१, ३ : ११;  
-पम् वौश्रौ १६, ९ : ४<sup>१</sup>; २०,  
१९ : ३२; ३३; ३५; लाश्रौ ९,  
१२, १२; -पाः वौश्रौ २०, २३ :  
१२; १३; -पात् वौश्रौ १८,  
२ : ७; १३ : १७; ४१ : १८;  
-पे माश्रौ ३, १, १<sup>१</sup>.  
अ<sup>३</sup>प-कृत- -तम् वौश्रौ २०,  
१९ : ३४; ३५.  
✓अ<sup>३</sup>लक्ष पाधा. भ्वा. उभ. अदने.  
✓अ<sup>३</sup>लाश<sup>३</sup> पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ.  
✓अ<sup>३</sup>लेप् पाधा. भ्वा. उभ. गतौ.

## म

म<sup>३</sup> पि १, १.  
म<sup>३</sup> वाधूश्रौ ३, ४१ : १<sup>३</sup>.  
म<sup>३</sup>- कृत ३, ३, १०××; मः कृत ४,  
४, १०; भाशि ७८; ८०.

म-कार- -रः शांश्रौ १, २, ११;  
आमिगृ; -रम् विध ५५, १०;  
-रस्य शौच २, २५; ३१; शैशि;  
-रात् ऋप्रा ६, २३; -रे आश्रौ  
१, ५, १४; हिश्रौ.  
मकार-निलय- -यम् या १४,  
३०.  
मकार-पर<sup>०</sup>- -रः तैप्रा ८, ४;  
-रे शुप्रा ४, १८८.  
मकार-पूर्व<sup>०</sup>- -र्वः तैप्रा ५, ३५.  
मकार-लोप- -पः तैप्रा १३, १;  
अप्रा २, १, ४; -पे ऋप्रा ११,  
४८.  
मकारा(र-अ)न्त<sup>०</sup>- -न्तः आश्रौ  
७, ११, १३; शांश्रौ १, १, २०;  
-न्तम् आश्रौ १, २, १०; शांश्रौ  
१, १, २२; -न्तानि अप्रा २, १,  
१५; ४, १७; १८; -न्ते याशि  
२, ४२; -न्तेन वैताश्रौ २१, ४.  
मकारान्त-त्व- -त्वम् पावा  
१, ४, ७४; ४, ३, २३; -त्वात्  
पावा २, ४, ८१.  
मकारान्ता(न्त-अ)र्थ- -र्थम्  
पावा ३, ४, २६.  
मकारा(र-आ)वाध- -धे अप्रा  
२, ४, १६; १८.  
मकारा(र-अ)वग्रह<sup>०</sup>- -हाणि  
अप्रा २, ३, २७.  
म-यो(थ-उ)इय<sup>३</sup>- -यः शुप्रा ३,  
६७.  
म-पूर्व<sup>०</sup>- -र्वः पा ६, ४, १७०.  
मपूर्व-प्रतिपेध- -धे पावा ६, ४,  
१७०<sup>१</sup>.

a) =योगि-विशेष-। b) व्यप.। c) ष्वोः इति पाठः? यनि. शोधः। d) वैप १, २३८४ d द्र.।  
e) पाभे. वैप १, २३०४ g द्र.। f) =भू-मध्य-। g) पाठः? अमके इति शोधः (तु. वौश्रौ २५, ८ : १६  
इत्यत्र संस्कर्तुः टि.)। h) धा. क्रोधे वृत्तिः। i) परस्परं पाभे.। j) सपा. यज्ञं अ्रेपः<> यज्ञं अ्रेपः<> अ्रेपे  
इति पाभे.। k) पा ३, १, ७०; ६, ४, १२५ परामृष्टः द्र.। l) =म-गरा- [छन्दोगण-]। m) पाठबुद्धितः।  
n) =वर्ण-विशेष-। o) वस.। p) दस.>वस.। q) तु. पाका.। मपूर्वात्प<sup>०</sup> इति भाण्डा. प्रभृ.।

१मन्- सौ अप्रा ३, २, २४.

म-लोप- -पः पावा ५, ३, ७२; -पाव  
तैप्रा १५, १; १७, ४.

मलोप-वचन- -नम् पावा ८, १,  
६७; -नाव पावा ६, ४, १७४.

म-सवर्ण- -र्णम् याशि २, ४२.

मा(म-आ)दि- -दीनाम् फि ५३.

मा(म-अ)न्त<sup>०</sup>- -न्तः भाशि ९९;  
-न्तस्य पा ७, ३, ३४; -न्ते  
नाशि ४, १०.

मान्ता(न्त-अ)व्यय-प्रतिषेध-

-धः पावा ३, १, ८.

मंश्च(श्च-तु)<sup>०</sup>- -तोः ऋप्रा ४, ८२१.

मंस्तः<sup>०</sup> वौश्रौ २५, ३२ : १२; २२;  
२८.

√मंह (वघा.)<sup>b,d</sup>, मव्, मह् पाघा.

भ्वा. आत्म. वृद्धौ; भ्वा. पर.,  
जुरा. उभ. पूजायाम् भाषायाम्

च, मंहते निघ ३, २०<sup>१</sup>;

मंहस्त्र काय ३२, ३<sup>१</sup>; मंह

वौश्रौ ८, ६ : ७<sup>१</sup>; मंहत् अप

१, ४८, १-४; ४९, ६; अशां

१३, ३; अमंहत शांश्रौ १६, ९,

१३<sup>१</sup>.

महते अप ४८, १३<sup>१</sup>;

ममामहन्ताम् अप्राय ६, १;

ऋप्रा ९, ३२; शुप्रा ३, १२९.

ममामहे शांश्रौ १२, १४, १.

महयति वौश्रौ १, २, ६३; भाय

२, ५ : ९; १६; १७; अप ४८,

९<sup>१</sup>; निघ ३, १४<sup>१</sup>; महयन्ति

कौश्रौ ३, १२, ११; काय ५७, १;

महयति कौश्रौ ४६, ५४<sup>१</sup>; मह-

य > या ऋप्रा ८, १३<sup>१</sup>; महयत

कौश्रौ ८४, ९<sup>१</sup>; महयाम् आमिष्ट

२, ५, ३ : ३३<sup>१</sup>; महयेत् वौश्रौ

१, २, ६३; वाघ ८, १२.

ममहयिष्यतः द्राश्रौ ११, २, ५;

लाश्रौ ४, २, ४<sup>१</sup>.

मंह-> मंहिष्ट- -ष्टः शांश्रौ १८,

१५, ५<sup>१</sup>; आपश्रौ; -ष्टस्य तैप्रा

१६, २७; -ष्टाय आश्रौ ६, १, २;

७, ८, १; ८, ६, १३; शांश्रौ.

मंहन-> मनीय- -यः या ३, १३;

-यम् या ४, ४; १२, ६.

मंहना<sup>b</sup>- -ना निस् १, ५ : ५.

मंहम<sup>c</sup>- -माय गौष २६, १२.

ममव<sup>d</sup>- -वः<sup>१</sup> भाशि ४०; -घम्

अप ४८, ९०; निघ २, १०;

या १, ७<sup>१</sup>; ४, १५; -वस्य ऋप्रा

९, २०<sup>१</sup>; -घा या ५, १६<sup>१</sup>.

ममव-वत्- -वते वौश्रौ १८,

२८ : २१; २६, ३१ : १०; ११;

-वत्सु वौश्रौ १३, ९ : ४;

-वद्भिः आमिष्ट २, ५, ८ : ११;

-वन्तम् वौश्रौ २६, ३१ : ८;

-वान् शांश्रौ १८, १९, ८;

वाधूश्रौ ४, २८, ११; वैताश्रौ.

मववती- -ती या १, ७.

मव-वन्<sup>b</sup>- पाड १, १५९; पा

६, ४, १२८; -मववन् आश्रौ

५, १४, २६××; शांश्रौ; या ६,

१××; -मववा आश्रौ २, १०,

१६; ३, ८, १; ५, २०, ६; शांश्रौ;

-मववानः शांश्रौ ४, ९, १<sup>१</sup>; १२,

२०, २; आपश्रौ; -मववानम्

आश्रौ २, २०, ४; शांश्रौ १८, ४,

८; आपमं २, ११, ८; -मववोना<sup>१</sup>

कौश्रौ १, १६, ७; शांश्रौ १, २४,

४; -मववोनाम् वौश्रौ १८, ६ :

१३; आश्रौ १, १५, १<sup>१</sup>.

ममववोनी<sup>b</sup>- -नी वौश्रौ

३, १८ : २५; हिश्रौ ६, ३, २;

या १, ७<sup>१</sup>; ऋप्रा १, १००.

मवव-देवता-> व(त्य>)

त्या- त्या शुभ्र १, ४४२.

मववन्-वर्जम् पावा १, २,

३७.

मवव-भ्रुति--तिः भाशि ४०.

ममव<sup>b</sup>- महः माश्रौ २, ५, १, ८; ९;

महा आश्रौ<sup>१</sup> ४, १५, ७; ८, ११,

१; शांश्रौ ६, ४, ५; १०, ११,

२; १४, ५६, १; आपश्रौ १६,

३५, ५; माश्रौ २, ५, ४, १३<sup>१</sup>;

वाश्रौ २, १, ८, १६; हिश्रौ ११,

८, २३; साश्र २, ६५४; महे

आश्रौ २, १०, ३××; शांश्रौ; कौश्रौ

१२, १<sup>०</sup>; अपं २ : ४६<sup>०</sup>; या ९,

२७<sup>१</sup>; १०, ४७<sup>१</sup>; ११, ९<sup>१</sup>.

१मह- -मह शांश्रौ ३, ५, २<sup>१</sup>; -हस्य

या ५, ७<sup>१</sup>; -महानाम् आश्रौ

८, १, १४<sup>१</sup>; हिश्रौ १२, ६, ६;

-हानि आश्रौ ९, ५, १६<sup>१</sup>;

-हायं शांश्रौ ३, ५, १<sup>१</sup>; -महे

आश्रौ ६, २, ६; ३, १; ४, १०;

शांश्रौ ९, ६, ६; १८, ४; आपश्रौ.

a) वत्त. । b) वैप १ द्र. । c) = कुम्भवतः (यद्र.) इति सूत्रि । d) या १, ७ परामृष्टः द्र. ।

e) धा. दाने वृत्तिः । f) महये इति पाठः? वनि. शोधः (तु. द्राश्रौ.) । g) पाभे. वैप १, २३८५० द्र. ।

h) = छन्दो-विशेष- । i) वैप २, ३२७. द्र. । j) शब्दाऽतुरकर- । k) पाभे. वैप १, २३८८८ f द्र. । l) सपा.

मघोना <> मघोनाम् इति पाभे. । m) पाभे. वैप १, २३८९८ द्र. । n) पाभे. वृ ७३६ j द्र. । o) पाभे.

वैप १, १५७९ d द्र. । p) सपा. मह विश्वाय <> महापमाय इति पाभे. । q) पाभे. वैप १, २३८९ p द्र. ।

r) सपा. विश्व महाप <> महापमाय इति पाभे. ।



फँमहः<sup>३</sup> आश्रौ ८, १, १२; ७, २२; शांश्रौ; आपश्रौ ११, ७, ७<sup>७</sup>; १६, ३५, ५०; अप ४८, ६८<sup>२</sup>; या ६, ६; ९, २५<sup>६</sup>; ११, २७<sup>६</sup>; ३२; १२, ११; ३२; १२, ७<sup>६</sup>. महो ( हः-अपस > )पो-वर्जम् ऋषा १, ७७.

महत्<sup>३</sup>- पाउ २, ८४; पाग ४, १, ४१; ८६; ५, १, १२२; -हत् फँआश्रौ ६, ४, १०; १०, ९, २<sup>३</sup>; शांश्रौ; आपश्रौ १०, १, ४<sup>१०</sup>; १६, १९, १<sup>१</sup>; हिश्रौ ७, १, ११<sup>१०</sup>; ११, ६, ३१<sup>१</sup>; द्राश्रौ १, १, १०<sup>१०</sup>; लाश्रौ १, १, १०<sup>१०</sup>; आश्र १, २३, १५<sup>१०</sup>; या ५, १९××; णिघ १, १२<sup>६</sup>; -हत्: फँआश्रौ ४, १३, ७; ९, ५, १६; शांश्रौ; या १, ७××; पा ६, ३, ४५; -हत्ता बौश्रौ १७, ४८: १०; कौसू ६८, २७<sup>१</sup>; कप्र; -हत्ताम् शांश्रौ १२, २, १४<sup>१</sup>; भाश्रौ १, २४, ५<sup>१</sup>; कौगृ; -हत्ति आश्रौ १०, ९, ५<sup>१</sup>; शांश्रौ १६, ७, १<sup>१</sup>; काश्रौसं; या ७, २६; १४, ७; -हत्ते फँआश्रौ २, ११, ९; १२, ५××; शांश्रौ; आपश्रौ १०, ३, ८<sup>१</sup>; या ९, २७××; -हत्सु निसू १०, ७: १५; शंघ २५१; २६१; विघ २३, ४६; अप २: ३; ७; -हङ्गि: या २, २४; -फँहद्भ्य: आश्रौ १, ४, ९; शांश्रौ; -हात् फँआश्रौ १, २, २७; ६, १<sup>२</sup>××;

८, १०, ३<sup>१</sup>; शांश्रौ; या ३, १०<sup>६</sup>; १३<sup>६</sup>; -हान्त: शांश्रौ ८, २१, १; काश्रौ २५, १, ११<sup>१</sup>; बौश्रौ; -हान्तम् काश्रौ ८, ५, २६; आपश्रौ; आपघ २, २०, ८; हिघ २, ५, ९५<sup>१</sup>; -हान्ति वैश्रौ ९, ३: १३; सु १२, २; अप ६३, ५, ३; ६८, १, ३५; -हान्तौ सु १४, १.

महती- पा ४, १, ४१; -०ति या ११, ३७<sup>६</sup>; -ती आपश्रौ १९, १५, ६<sup>१</sup>; २०, ७, ११; बौश्रौ १९, ९: १०<sup>१</sup>; हिश्रौ; -ती: आश्रौ ४, ७, ४<sup>१</sup>; बौश्रौ १५, १४: १२; -तीभ्य: बौश्रौ १८, २८: १९<sup>१</sup>; -तीम् माश्रौ ६, २, ५, २४; कौगृ ५, ७, २; अप ३१, २, २; ६६, ३, ४; वृदे ७, ४३; -त्य: या ८, १०; -त्या शांश्रौ १७, १५, १०; वाश्रौ २, २, ४, २; या २, २५; -त्यौ या ८, ११.

माहत- पा ४, १, ८६; ५, १, १२२. महत्-काण्ड<sup>३</sup>- फँण्डाय अप ४६, १०, १८; अत्र १९, २३; -ण्डै: अप ४६, २, ८. महत्-तमा(म-अ)धर्म-संबद्ध- -द्ध: वाघ ५, ८. महत्-त्तर- -र: वैगृ ४, १४: १७. महत्-ता- पा ५, १, १२२. महत्-ज्यङ्ग- -ज्यो: हिश्रौ ४, ५, ९.

महत्-त्व-पा ५, १, १२२; -त्वम् अप ३१, २, ४<sup>२</sup>; ३, ४; बौघ २, १०, १०; या ७, २३; आशि ८, २१; -त्वात् उनिस् ६: ३४<sup>२</sup>; -त्वे पावा ४, १, ४९; -त्वेन या १०, ४; १०; ११, ३७; १२, १६. महत्-पति- -०ते विघ ९८, २६. महत्-सर्प- -र्पान् अप ६४, ८, ८.

महद्-अप्-स्वस्-नप्तृ- -प्तृणाम् पावा १, १, ७२. महद्-आस्व- -त्वे पावा ४, १, १; ६, ३, ४५. महद्-उक्य<sup>६</sup>- -क्य: या ६, ४. महद्-उत्त(म>)मा- -माम् अप ६६, १, ३. महद्-ऐश्वर्य- -दायक- -का: आम्रिगृ २, ४, १२: ९. महद्-दि(व>)वा<sup>१</sup>- -वा या ११, ४९.

महद्-दु:खा(ख-अ)नुभवन- -नम विघ ९६, ३३. फँमहद्-भूत<sup>३</sup>- -त्म् सु १९, ५<sup>१</sup>; बौगृ २, २, ९<sup>१</sup>. ?महद्-वर्ष-संवृत- -न्ते अप ६५, २, ५. महन्-नामन्- -मानि निघ ३, ३; या ३, १३. मह(हा-ऋ)त्विज्- -त्विग्भ्य: शांश्रौ १६, १, २; आपश्रौ; -त्विज: आपश्रौ १८, ५, १६; ६, १२; २०, १, ६; २१, १०, १३<sup>१</sup>; बौश्रौ; -त्विजम् भाश्रौ १०, १, ७; अप २९, १, १;

a) वैप १ द्र. । b) पाभे. वैप १, २२८६ III द्र. । c) पाभे. वैप १, २३९० e द्र. । d) सपा. महत्<>महः इति पाभे. । e) भाप. (दु. P.W. प्रसू.) । f) पाभे. वैप १, २२८६ f द्र. । g) =उदक. । h) पाभे. वैप १, २२८७ d द्र. । i) पाभे. वैप १, २२८६ d द्र. । j) ०न्ते इति पाठः ? यनि. शोघ: (दु. आपघ २, २०, ८) । k) वस. । l) वैप १, २२९० t द्र. । m) शोघ: वैप १, २३९४ g द्र. ।

-त्विजाम् वौश्रौ ७, १४: २५×४;  
वैश्रौ १६, १४: २; वृदे ७, ११३.  
मह(हा-ऋ)पि- -र्षयः कप्र ३,  
१०, १०; अप १, ३८, ३१;  
३९, १, १; अशां ८, ३; वृदे १,  
८१; ८, १३७; -र्षिभिः अप  
२३, १३, ५; -र्षिम् वृदे ५, ६५;  
-र्षिन् अप ५४, १, १; वौध २,  
५, २७१.

महा-ऋक्ष- -क्षे वाध २१, ३२.  
महा-ऋर- पावा ६, ३, ४५.  
महा-ऋल्प- -ल्पः विध २०,  
१७; -ल्पम् शंघ ११६: ४४.  
महा-ऋपोल- -लाः चव्यु ३:  
५८.

१महा-ऋय- > °कायिक-  
-०क विध ९८, ३९.  
२महा-ऋय- -याः अप ५२,  
६, ३; १३, ५.

महा-ऋल्विप-कारक- -काः  
वौध १, ११, २१.  
महा-ऋल- -लम् वौश्रौ १८,  
२६: २०.

महाऋल- °कुलीन- पा  
४, १, १४१.

महाऋलीन- पा ४, १, १४१.  
महा-ऋ(ल >)ला- -ला या  
९, २६; -लाम् या ७, २०; १४,  
३३.

महा(हा-ऋ)ऋति- -तिः विध  
१, ५.  
महा-ऋश- -शः वौश्रौ २६,  
८: १३.

महा-ऋपीतक- -कम् श्राग

३, ४, ४; कौगृ २, ५, ३.  
महा-ऋपीतक- -कम् श्राग  
४, १०, ३; ६, १, १; अप ४३,  
४, ३०.

महा(हा-ऋ)ऋ- -शाः वौश्रौप्र  
३६: २.

महा-ऋज्ञा- -ज्ञायाम् विध ८५,  
२३.

महा-ऋगण- -णभ्यः अप ४६,  
९, १७; अशां २४, ६; अश्र १९,  
२२.

महागणा(ण-भ)धिपति-  
-तिभ्यः अशां २४, ६.

महा-ऋति- -तेः या २, ७.  
महा-ऋय- -यम् आपश्रौ ५,  
१७, २; हिश्रौ ३, ४, ४७.

महा-ऋगिरि- > °रि-महानदी-  
रथाहर-वायु-व्यवाय- -येषु  
द्राश्रौ ३, ३, २१; लाश्रौ १,  
११, १२.

महा-ऋगुरु- -रुपु श्रागृ ४, ४, १७.  
महा-ऋगृष्टि- पा ६, २, ३८.

महा(हा-ऋ)ग्न-वत् वौश्रौ १९,  
१०: ३८.

महा-ऋह- -हः वौश्रौ २५, १३:  
२५; अप ५२, १२, १; ५३,  
५, २; -हाः अप ५२, २, २;  
१५, ४.

महाऋहो(ह-उ)इय- -यम्  
अप ६३, ४, ५.

महा-ऋवात्- पावा ६, ३, ४५.  
महा-ऋघोर- -राय वौगृ २, १,  
१८.

महा-ऋक- -कम् अप ५८, १,

१, ९.  
महा-ऋमस- -सम् वाधूश्रौ २,  
८: ५.

महा-ऋचिति- -तिम् वौश्रौ १०,  
२७: १.

महा(हा-ऋ)ज- -जम् वाध ४, ८.  
महा-ऋजु- -जुवे, -जुः  
वौध ३, ९, २१.

महा-ऋजन- पाग ४, ४, ९९.  
महाऋजनिक- पावा ५,  
१, ९.

महाऋजनीन- पा ४, ४,  
९९.

महाऋजन-गजा(ज-ऋ)श्व-  
-श्वानाम् अप ७०, ७, २.  
महा-ऋहनु- -ह्वे, -ह्वुः  
जैगृ २, ८: ३०.

महा-ऋजाति- > °तीय- पा ६,  
३, ४६.

महा-ऋजावाल- पा ६, २, ३८.  
महा-ऋतपस्- -पाः विध १, ३;  
वृदे ४, २५.

महा-ऋतापश्चित- -तम् आश्रौ  
१२, ५, १४; शाश्रौ १३, २७, ४;  
काश्रौ २४, ५, ६; निस् १०,  
९: ५.

महा-ऋतुपित- -०त विध ९८,  
४८.

महा-ऋतेजस्- -जाः अप ३१,  
१, ३.

महा-ऋतैजस- -सम् शंघ ११६:  
४५.

महा(हा-ऋ)ऋमन्- -मनः  
उनिस ८: ३०; श्राज्यो १, ३;

a) =काल-विशेष-। b) =सामशाखाविशेष- तदर्थ्येत्- वा । c) °कालोपाः इति संस्कृतैः टि. ।  
d) विष्णु-नामन्-। e) वस. उप. =२काय-। f) वस. । g) व्यप. । h) परस्परं पाभे. । i) =नदी-विशेष-।  
j) वैप १ द. । k) दस. >पस. । रथाहर- =रथाह- (यद.) । l) =मन्त्रपाठविशेष- (तु. C.) । व्यु. ? ।  
m) उप. ? । n) परस्परं पाभे. । o) पाप्र. जातीयद् प्र. । p) =ऋतु-विशेष-। q) वस. उप. < ✓तुष् ।

१४, ११; -त्सना अप २३, १३, ४××; नाशि १, ५, १४; -त्सने अप ६८, १, २; -त्मभिः ऋअ ३, ३७; -त्सा काण्ड ४६ : १६; अप २४, ३, १××; या ७, १८; -त्मानः अप ५२, १०, ३; -त्मानम् विध १, ६०; आज्यो १४, ८.

माहात्म्य- -त्स्यात् वृदे १, ७०.

महा-त्रिककुम्भ- -कुम्भः शांश्रौ १६, २९, १३.

महा-त्रिककुम्भ- -कुम्भ आश्रौ १०, ३, २१.

महा(हा-आ)त्रेय<sup>b</sup>- -याः वौश्रौप्र २७ : ६.

महा-दन्त<sup>c</sup>- -न्तः सु १३, २.

महा-दान- -नानि अप १४, १, ८.

महादाना(न-अ)तिदान- -नानाम् अप ११, २, ३.

१महा-दिवाकीर्त्य<sup>d</sup>- -र्त्यम् आश्रौ ८, ६, ७; शांश्रौ ११, १३, १; २३; १६, १४, १३; १४; वौश्रौ १६, १४ : १६; द्राश्रौ ८, ३, ४; लाश्रौ ४, ७, १; वौध ३, १०, ११; गौध १९, १३; -र्त्यस्य शांश्रौ ११, १३, २४; लाश्रौ ७, ६, ११; -त्यै शांश्रौ ११, ११, ३४; १४, ४; ७.

२महा-दिवाकीर्त्य<sup>e</sup>- -र्त्यः हिश्रौ १६, ५, २८.

महादिवाकीर्त्य-स्तोत्रीया- -या लाश्रौ ४, ६, २३; -याः

द्राश्रौ ८, २, ३२.  
महा-देव- -वः वाधूश्रौ २, २० : ५१; क्षुस् १, १ : ७; माण्ड २, १४, २९१; अप; -वम् वैण्ड १, ४ : ५१; अप १, ३७, ४१××; अशां ७, ४; शंघ ११६ : २५; चाअ १७:१३; -वस्य शांश्रौ ४, २०, ११; -१वाय आण्ड ४, ८, ९; १९; पाण्ड ३, ८, ६; वैण्ड; -वे अप ७१, १७, २.

महादेव-नागाधिप- -पान् अप ७०, ९, ३.

महादेव-ह(त>)वा- -ताम् आश्रौ १०, १९, ३; भाश्रौ १०, १२, ८; हिश्रौ १०, ३, ९.

महादेवा(व-आ)यतन- -ने अप ४०, १, ५.

महा-दोष- -षः वृदे ४, ११९.

महादोष-विनाशन- -नाः वौध ४, ३, ७.

महा(हा-अ)द्भुत- -तानि अप ७२, १, १; ४, ३.

महा-द्युति<sup>f</sup>- -तिः अप ४३, ५, १७१; वृदे ५, १४७; १५२.

महा(हा-अ)द्रि- -द्रौ सु ३१, १. १महा-धन<sup>g</sup>- -ने आश्रौ ३, १३, १२; शांश्रौ ३, ५, ४××; वौश्रौ.

महा-ध्वज- -जः अप २१, ६, ४. महा-नक्षत्र- -त्राणाम् अप १३, १, ४.

१महा-नद- पाण्ड ४, १, ८६; -दे कौसू १७, १.

माहानद- पा ४, १, ८६;

-दम्<sup>h</sup> आपध १, २७, १; हिष १, ७, २५; २६.

महा-नदी- -दीम् आण्डिण्ड ३, ५, ५ : ४; वौषि १, ४ : ४; हिषि १ : ४; वृदे ६, ९६;

-याम् वौध १, ६, ३९.

महा-नरक- -कम् विध ४३, ७.

महा-नर्मा(र्म-आख्या>)ख्य<sup>i</sup>- -ख्यः वैध ३, १२, १२.

महा-नवमी- -न्याम् अप १८<sup>j</sup>, २, १; १२, २.

महा(हा-अ)नस(वप्रा.)<sup>k</sup>- पाण्ड ४, १८९; पाण्ड ४, १, ८६; -सम् वाधूश्रौ ३, ७६ : १०<sup>l</sup>; -सानाम् आश्रौ ९, ९, १४<sup>m</sup>; -सानि हिश्रौ १३, १, ३१<sup>n</sup>; -से कप्र २, ९, २४<sup>o</sup>.

माहानस- पा ४, १, ८६.

माहानसी- -सी वौश्रौ १५, २५ : १०.

माहानसिक- -कः वौश्रौ २६, १ : १४<sup>p</sup>.

महा-नाग- -नाः सु १३, २<sup>q</sup>; -गे अप ५३, ४, २<sup>r</sup>.

महा-नाद- -दः नाशि १, ५, १०.

महा-नानात्व<sup>s</sup>- -त्वानि लाश्रौ १०, ७, ३.

महा-ना(मन् >)नी<sup>t</sup>- पावाण्ड ५, १, ९४<sup>u</sup>; -नी<sup>v</sup> आपश्रौ २२, १८, २१; निस् ६, ५ : ५; -नीः आश्रौ ८, १४, २; १५; निस् २, १३ : ३२××; जैण्ड; -नीनाम् शांश्रौ १२, ६, ९; लाश्रौ ७,

a) = क्रतु-विशेष- । b) व्यप- । c) वस- । d) = साम-विशेष- । e) सप्र. आपश्रौ २२, १५, १६ दिवाकीर्त्यसामानम् इति पासे । f) वैप १ द्र- । g) तत्रमशर्थीयः प्र- । h) जाति- विशेष- । वस. पूष. ? । i) कस. समासान्तप् टच् प्र- । j) = महा-शकट- । k) = पाक-शाला- । l) माहा-नसिक- इति संस्कृतुः टि- । m) = हस्तिन्- । n) अर्थः ? । o) = छन्दोविधानविशेष- । p) = [उपचारात्] महानाम्नी-व्रत- ।

५,२; ५; निसू ७,१३: ७; १९;  
 ८, ७: १९; २८; -ज्ञोभिः  
 वौश्रौ १९, १०: ८; द्राश्रौ ९,  
 १,१४; लाश्रौ ३, ५, १३; निसू  
 ८,७: १५; २३; -ज्ञोभ्यः आश्रौ  
 ८,२,२३; -ज्ञीषु लाश्रौ १०,२,  
 १; निसू ३, १३: १; कौश्र २,  
 ७, २५; शाश्रु २, १२, १३;  
 -भ्यः आश्रौ ७, १२, १०;  
 शाश्रौ १०, ६, १०××; लाश्रौ;  
 -भ्या वौश्रौ ३, २५: ५;  
 १७, ४४: ४; आश्रित २, ६,  
 ६: २२; वौश्र १,२,३६; वौषि  
 २, ९, ९.

साहानामिक<sup>३</sup> -

पानात्रिक- पावा ५, १, ९४.

महानात्रिक<sup>४</sup> - काः गोश्रु  
 ३, २, १; जैश्रु १, १७: १; -केन  
 गोश्रु ३, २, ४७.

महानात्री-कारित- तान्  
 निसू ८, ७: २६.

महानात्री-गर्भ<sup>५</sup> - भंम् निसू  
 ८, २: ३१.

महानात्री-बल- लात् निसू  
 ८, ७: १८.

महानात्री-सामन्<sup>६</sup> - मा  
 आश्रौ २०, १३, १; हिश्रौ १४,  
 ३, ७<sup>०</sup>.

महा-निरष्ट<sup>७</sup> - श्रुः आश्रौ ९, ४,  
 ६; -ष्टम् वौश्रौ १२, ५: २५;  
 १७: १०.

महा-नीलोत्पल-वर्ण<sup>८</sup> - णः चव्यु  
 ४: २०.

महा-न्याय- यः आश्रौ ८, ५,  
 ७.

महा-पङ्क्ति<sup>९</sup> - इक्तयः श्रुश्र  
 २, १, १९१; -ङ्क्तिः ऋश्र १,  
 १०, ३; श्रुश्र.

महापाङ्क्<sup>१०</sup> - इक्तम् ऋश्र २,  
 ८, ३७; ३९; ४७; १०, १३४.

महापङ्क्ति-प्रस्तारपङ्क्ति-  
 इक्ती श्रुश्र १, ५३१.

महापङ्क्त्य(ङ्क्ति-श्रु)न्त<sup>११</sup>-  
 न्तम् ऋश्र २, ८, ३६; १०, १६६.

महा-पथ- यः द्राश्रौ १, १,  
 १७; लाश्रौ १, १, १६; अपं ३:  
 २; -यन् वाध २२, १; २; ३;

आपथ १, १६, १४; हिध १, ५,  
 १३; -थे गौषि १, ७, ४; आपथ  
 १, ११, १०; हिध १, ३, ६६.

२महा-प(थ>)था<sup>१२</sup> - याम्  
 पाश्रु ३, ४, ८.

महा-पदपङ्क्ति<sup>१३</sup> - इक्तः ऋश्र  
 १, ६, २; २, ४, १०; श्रुश्र ५, ३३.

महा(हा-श्रु)पराह- पा ६, २,  
 ३८.

महा-परिधि- धीन् वौश्रौ ६,  
 ३४: ७; ७, १: १७; -धीनाम्  
 वौश्रौ १४, ४: ८; २२, १६: ४.

महा-पर्वत- तान् शंघ ११६:  
 ९.

महा-पवित्रेष्टि- श्रुः वौश्रौ २८,  
 १: ३२.

महा-पशुपति- तये अप ३६,  
 ९, २२१.

महा-पातक- कानि वाध १,  
 १९; विध ३५, १; काध २७५:  
 १; -केभ्यः वाध २३, २२; गौध  
 २६, २१.

महापातक-ज- ज्ञानि वाध

२७, ७.

महापातक-द्रोप- वेण अप  
 ३६, १६, २.

महापातक-नाशन- नम्  
 आश्रित २, ७, ७: ८.

महापातकनाशनी- नी  
 शंघ ४५४.

महापातक-संयुक्त- कः  
 वौश्रौ २८, १: ३१; कप्र ३,  
 ४, ४; -क्तम् वौध ३, ६, ८.

महापातक-सं(ज्ञा>)ज्ञ<sup>१४</sup>-  
 ज्ञः काध २७५: ५.

महापातक-संबन्ध- न्धात्  
 अप ३६, १७, १.

महापातका( क-श्रु)दि-  
 पतितकर्मन्- श्रिणि आश्रित  
 २, ४, ७: १.

महापातकिन्- किनः शंघ  
 ३८७; विध ५, १; ३५, ६; ३६,  
 ८; ४३, २४; -किनाम् विध  
 ८, २५; ४४, ३; ४८, १३; वैध  
 ३; ९, १; सुध ५२; -किनि  
 कप्र ३, १, १२.

महा-पाथिह( त>)ती<sup>१५</sup>- ती  
 श्रुश्र २, ३.

महा-पार<sup>१६</sup>- राय गौध २६,  
 १२.

२महा-पार<sup>१७</sup>- रः वा ४, १८.

महा-पागा( श-श्रु)मिपरीत-  
 ताः वौश्रौ २६, १२: १३.

महा-पिङ्गल<sup>१८</sup>- लाय अप ३६,  
 १, १५; ९, १.

महा-पितृ- तरः आश्रित २, ६,  
 ३: ६; वौध २, ५, १८.

महा-पितृवज- ज्ञः वौश्रौ ५,

a) पाया. पाठः । b) तस्येदमीयत् ठन् प्र. । c) वस. । d) प्लान् इति पाठः? इति. शोषः  
 (तु. आश्रौ). । e) वैष १ द्र. । f) क्त. > वस. । g) = छन्दो-विशेष- । h) विष. (महापङ्क्ति-छन्दो-  
 वद-] सूक्त-). । i) = श्रुति-विशेष- । j) वैष २, ३३. द्र. । k) = वद- ।

१५:३४; २५, ३:१; वैश्रौ ९,  
४:१; -ज्ञम् वौश्रौ ६, ११:  
१; -ज्ञस्य वौश्रौ २१, ४:१;  
-ज्ञे वौश्रौ २०, ३:१८; २६,  
२५:१६; २९:११; हिश्रौ ७,  
४, १६; -ज्ञेन हिश्रौ ५, ४, १.  
महापितृयज्ञ-वत् वैश्रौ १४,  
२:८.

महापितृयज्ञ-हविस्- व्रीषि  
वौश्रौ १७, ५७:२०; २२;  
६०:१३; ६२:७; २६, २५:  
१९; २९:१५.

महा-सु(ण्य >)ण्या<sup>a</sup> - ँण्ये सु  
३, ४.

महा-पुल्प- ँप विध ९८, ८४;  
-पाय गौध २६, १२.

महा-पृष्टय<sup>b</sup> - तैप्रा ११, ३.

महा-पैङ्गय<sup>c</sup> - ङ्गयः अप ४३, ४,  
४८<sup>f</sup>; -ङ्गयम् आगृ ३, ४, ४;  
कौगृ २, ५, ३; शांगृ ४, १०, ३;  
अप ४३, ४, ४२.

महा-पैडीनसि<sup>e</sup> - सिसम् अप ४३,  
४, ५५.

महा-पैवृ(क >)की<sup>d</sup> - की हिश्रौ  
१२, ८, १५.

महा-प्रजापति<sup>g</sup> - ँते विध ९८,  
१६.

महा-प्रती(क >)का<sup>h</sup> - का या  
१०, २१.

महा-प्रदेश- शम् ऋप्रा ११,  
४२.

महा-प्र(भा >)भा<sup>i</sup> - भाः अप  
५२, २, २.

महा-प्रभा(व >)वा<sup>j</sup> - ँवे

विध ९९, ३.  
महा-प्रसु- सुः विध ९७, १५.  
महा-प्रवर- रे वौश्रौप्र ५४:  
१८.

महा-प्रवृद्ध- पा ६, २, ३८.

महा-प्राज्ञ- ज्ञः अप २९, १, २;  
-ज्ञम् अप ३१, ४, १; ३९, १, १.

महा-प्राण- पाग ४, १, ८६; -णः<sup>k</sup>  
आशि ८, १६; २६; -णाः<sup>l</sup>  
आशि ४, ३; ५.

माहाप्राण- पा ४, १, ८६.

महाप्राण-त्त्व- त्वात् आशि  
८, १९.

महा-फल<sup>m</sup> - लम् अप ३१, २,  
२; ५, ३; ३८, ३, ३.

महा-त्रल, ला<sup>n</sup> - लः अप ४३, ५,  
२९; -ला<sup>o</sup> अप ७१, १७, ७;

-लाः अप ५२, ५, ४; शंघ २११.

महा-वल-पराक्रम- ँम विध  
१, ५०.

महा-वलि- लिम् अप ७०<sup>r</sup>,  
१६, ५.

महा-वृहती<sup>p</sup> - ती ऋअ १, ९,  
९; २, १, १०५××; शुअ २,  
८५; ४, १०५; ५, ६८; अअ; -त्वः

शुअ २, ४००; अअ ४, ३९; १८,  
४; १९, ४५; -त्यौ अअ ९, १.

महावाहृत<sup>q</sup> - तः ऋअ १,  
११, ४; ४, १०; ऋप्रा १८, १०.

महावाहृत-वाहृत- तौ  
ऋअ २, ६, ४८.

महावृहती-महासतोवृहती-  
त्यौ ऋअ १, ११, ४.

महावृहती-मुख<sup>r</sup> - खः ऋप्रा

१८, १०.  
महा-व्रह्म- व्रह्मन् पा ५, ४,  
१०५.

महा-भय- यम् अप ५५, ६, २;  
७०<sup>s</sup>, ७, १६; २२; ७०<sup>t</sup>, ११, ३३.

महा-भाग, गा<sup>u</sup> - ँग अप ९, ४,  
३; अशां २, १; ४, २; विध ९८,  
४५; -गा आज्यो १३, १०;  
-गाः शंघ २११; -ङ्गे अशां  
५, ७.

माहाभाग्य- न्यम् या ७,  
२३; -न्यात् या ७, ४; ५; १३, १.

महा-भार- रत<sup>v</sup> - पा ६, २,  
३८.

महा-भास्वर<sup>w</sup> - ँर विध ९८,  
४३.

महा(हा-अ)भिषव<sup>x</sup> - वः  
आपश्रौ १३, १, ७; १०, ५; वैश्रौ  
१६, १०:१२; -वम् आपश्रौ  
१२, १२, १; -वाय वैश्रौ १५,  
१३:१; हिश्रौ ८, ३, २२; -वेषु  
आपश्रौ १२, ८, ४; ११, ११.

महा(हा-अ)भिषेक- कम् अप  
३०<sup>y</sup>, २, १.

महा-भूत- वानाम् कौसू १९,  
३१; -तानि विध ९८, २; या  
१४, १०; -तेषु या १४, ५.

महा-भूमि- > महाभौम<sup>z</sup> -  
मः अप १, ६, ५.

महा-भूमिका-वत् या १४, ७.

महा(हा-अ)अ- अ्रेण अप ५८<sup>aa</sup>,  
२, ५.

महा-मख- त्वाः कप्र २, ३, २.

महा-मति<sup>ab</sup> - तिः अप २९, १,

a) वस. । b) = पडसुवाक-संज्ञा- । c) = ऋषि-विशेष- । d) = वेदि-विशेष- । कस. । e) विष्णु-  
नामन्- । f) = प्रयत्न-विशेष- । g) = देवता-विशेष- । h) = छन्दो-विशेष- । i) = प्रगाथ-विशेष- ।  
j) = ग्रन्थ-विशेष- । k) विप. > व्यप. (विष्णु-)! l) = कर्म-विशेष- । m) विप. । तस्येश्वरस्य षणि प्र-  
(पा ५, १, ४२) उप. वृद्धिः ।

३; -०ते अप ९,४,३.  
 महा-मदमित्र<sup>३</sup> -त्रम् अप ४३,  
 ४,५०.  
 महा-माजरी-श्रवण -प्रमाण<sup>४</sup>-  
 -णात् कप्र २,३,१४.  
 महा-मुख<sup>५</sup> - पा ६,२,१६८.  
 महामुखी- -ख्याम् काश्रौ  
 १६,७,८; १८,३,४.  
 महा-मुनि- -निः विध १, २०.  
 महा-मेव- -घः सु २६,५; -घाः  
 अप ६२,३,२.  
 महा-यज्ञ- -०ज्ञ विध ९८,५४<sup>६</sup>.  
 -ज्ञः शाश्रौ १४, ५, ४; वौश्रौ  
 १३,१२ = ९×४; माश्रौ; -ज्ञम्  
 वौश्रौ १४,८ = २; -ज्ञाः वाधूश्रौ  
 ३,४१; १८; कौश्र ३, १०, ३५;  
 पाश्र १,२,६; २,९, १; वौश्र २,  
 ९, ७; भाश्र; -ज्ञान् आश्रिण ३,  
 १२,२ = २; वैश्र ४,४ = २५; ६,  
 १६ = २१; शंश्र १३०; -ज्ञानाम्  
 आश्रिण २,७, ९ = ४३; भाश्र ३,  
 २१ = ६; -ज्ञे शाश्रौ १४, ८,  
 ११; १५,११, ९; वृश्र ४,११२.  
 महायज्ञ-क्रिया-क्रम- -मः  
 वाध २७, ७.  
 महा-यत्न-प्रदर्शन- -नात् कप्र  
 ३,१०,१०.  
 महा-यन्त्र-प्रवर्तन- -नम् विध  
 ३७,२३.  
 महामहा-यम<sup>७</sup> -माय कौश्र ३,  
 ४,११; २६.  
 महा-यदास<sup>८</sup> -०दाः पाश्र ३,६,

३; -शाः सु २, ६; वृश्र ५, १५२.  
 महा-युद्ध- -द्धम् अप ५५, ६, २.  
 महा-योग-वलो ( ल—उ )पेत-  
 -त्तम् विध १, ५९.  
 महा-योगिन्- -गी विध १, ११.  
 महा-रक्षस- -क्षोभ्यः अशां २४,  
 ६१.  
 महा-रजन<sup>९</sup> - पाउना २, ७५.  
 माहारजन- पावा ४, २,  
 २.  
 महारजन-रक्त- -क्तेन विध  
 ९०, २१.  
 महा(हा-श्र)रण्य-निवासिन्-  
 -सिनः शंश्र २२२.  
 महारत्न-सामन्<sup>१</sup> - म्ना ससू  
 ३७, ६८.  
 महाराज- पाग ५, १, १२४;  
 -जः<sup>१</sup> काश्र २०, २; माश्र २,  
 १४, २९१; -जम्<sup>१</sup> आपध २,  
 २०, ३; हिध २, १३, ९०;  
 -ज्जाय<sup>१</sup> भाश्र १, ८ = १; २, ५;  
 १५; गोश्र ४, ७, ३६.  
 माहाराजिक- पा ४, २,  
 ३५; ३, ९७.  
 माहाराज्य- पा ५, १,  
 १२४.  
 महाराजा(ज-श्र)हिताग्नि-  
 -ग्रयः अप २३, ९, ३.  
 महाराजिक<sup>१</sup> - ०क विध  
 ९८, ४०.  
 महाराज<sup>१</sup> -त्रः वौषि १, १४;  
 २१; -त्रे शाश्रौ ६, २, १; १७,

७, १; आपश्रौ; लाश्रौ ८, ३, ११<sup>३</sup>.  
 महारात्र-प्रवेशा(श-श्रा)दि-  
 -दि जैश्रौका ३६.  
 महारात्रिक<sup>३</sup> - क्रम् वौश्रौ  
 २५, १४ = १; -केण वौश्रौ २६,  
 १३ = ९.  
 महाराष्ट्र<sup>४</sup> - -ष्ट्रे अप ५१, १, ४.  
 महारिष्ट<sup>५</sup> - -ष्टान् आश्रिण २, ४,  
 ८ = ७.  
 महारोग- -गेण आश्रौ २, ७,  
 १७; ९, ७, २२.  
 महारोग-प्रनाशन- -नम्  
 आश्रौ ११, ४.  
 महारौरव<sup>६</sup> - पा ६, २, ३८;  
 -वम् विध ४३, ५; -वे अप  
 ६९, ४, १.  
 महारौरव-संज्ञा- > सं-  
 जित- -तम् विध ५४, ७.  
 महा(हा-श्र)र्व<sup>७</sup> - -र्वम् वौध १,  
 ५, ७९; वाध २, ४१.  
 महा(हा-श्र)र्णव- > ष्व-म-  
 हेन्द्र<sup>८</sup> - -न्द्राणाम् अप ६८,  
 २, ३८.  
 महा(हा-श्र)र्थ- -र्थम् आश्रौ  
 ९, १; -र्थानाम् मैश्र १.  
 महा(हा-श्र)लय<sup>९</sup> - -ये काश्र ७  
 ४५ = ६; विध ८५, १८.  
 महालया(य-श्र)एकाध्रादो-  
 (द्र-उ)पाकर्मा(र्म-श्रा)दि- -दि  
 काश्र ७ ४३ = १२.  
 महा(हा-श्र)वकाश<sup>९</sup> - -शे कौश्र.  
 २४, ३.

a) कस. । b) कस. > पस. > पस. । श्रवण- = १कर्ण- । c) वस. । d) विष्णु-नामन्- ।  
 e) वैष १ द्र. । f) पाभे. पृ १८८६ I द्र. । g) पाभे. पृ १८८६ p द्र. । h) = कुमुम्भ-पुष्प- । i) पाठः ?  
 महामत<sup>१</sup> इति शोधः (तु. ससू ३५, ३८ समहावतैः इति) । j) = देवता-विशेष- । k) = विष्णु- (तु. अश्रौ. Jolly;  
 वैतु. श्रमा. < महा-राजि-इति) । l) = (राश्रेः) तृतीय-भाग- । m) श्रैः इति पाठः ? यनि. शोधः । n) तद्र-  
 भावार्थे प्र. । o) = प्रदेश-विशेष- । p) = वृद्ध-विशेष- । q) = नरक-विशेष- । r) उप. = पर्वत- ।  
 s) = धास-गह- ।

महा-वक्र<sup>a</sup>- -वक्राय अप ३६,  
९, १६१.  
महा-वध<sup>b</sup>- -धात् या १०,  
११११.  
महा-वन- -नम् कागृ २६, ९.  
महा-वराह<sup>c</sup>- -०ह विध ९८,  
७९.  
महा( हा-आ )वर्त<sup>d</sup>- -तेषु अप  
६५, १, ६.  
महा-वर्ति-द्वय- -येन विध  
९०, २०.  
महा-वर्ष<sup>e</sup>- -षे काघ २७५ :  
१०; -षेषु वीश्रौ २, ५ : १८१.  
महा-वात- -ताः अप ५५, ६,  
२; -ते काघ २७६ : १.  
महा-वाल-भिद्<sup>f</sup>- -भित् आश्रौ  
८, २, १८; -भिद्म् आश्रौ ७,  
२, १६.  
महा-विक्षेप<sup>g</sup>- -पम् या ६, ३३.  
महा-विघ्न- -घ्नानि मागृ २,  
१४, १९.  
महा-विशिष्ट- पावा ६, ३, ४५.  
महा-विष्णु- -ष्णवे आमिगृ ३,  
११, ४ : १४; -ष्णुः आमिगृ २,  
४, १० : ७.  
महा-वीणा-> णा-पिशील-  
वीणा- -णे द्राश्रौ ११, २, ४;  
लाश्रौ ४, २, ३.  
महा-वीर(वप्रा.)<sup>h</sup>- -रः आपश्रौ  
१५, १७, ७; भाश्रौ; -रम् आश्रौ  
४, ७, ४; शाश्रौ ५, ९, २७; ८,  
१५, ११; १३, १२, १३; काश्रौ;  
वीगृ ३, ४, ९६; -राः वृदे ५,  
३५; -रात् वीश्रौ ९, ४ : ८;  
-रात् काश्रौ २६, १, १; आपश्रौ;

-राय वीश्रौ ९, १९ : ६१;  
वीगृ ३, ४, ३६; वैगृ २, ११ :  
३६; -रे आपश्रौ १५, १०,  
१; १४, १०१; वीश्रौ; -रेषु  
वीश्रौ ९, १५ : ३; माश्रौ ४,  
१, ३२; -रौ काश्रौ २६, २,  
३५; आपश्रौ १५, ६, ११;  
वीश्रौ.  
महावीर-पयः- -शेष- -पम्  
वैश्रौ १३, १३ : ४.  
महावीर-पात्र- -त्रेषु शाश्रौ  
५, ९, ४; १०, ३२.  
महावीरपात्रो (त्र-उ)द्-  
वासन- -नम् शाश्रौ ५, १२, २.  
महावीर-संमित- -तौ वैश्रौ  
१३, ७ : १२.  
महावीरसंमिता (त-आ)  
वस्क- -स्कौ हिश्रौ २४, २, ५<sup>h</sup>.  
महावीरसंमिता (त-आ)  
वस्क्य- -स्क्यौ<sup>h</sup> आपश्रौ १५,  
५, ११; भाश्रौ ११, ५, १३.  
महावीरा(र-आ)यतन- -नम्  
द्राश्रौ २, २, १४; लाश्रौ १, ६,  
१३.  
महा-वीर्य<sup>i</sup>- -र्यम् सु १४, २.  
महा-वृक्ष- -क्षः द्राश्रौ १, १,  
१७; लाश्रौ १, १, १६; निस्र  
४, ११ : १५; -क्षम् निस्र ४,  
११ : २३; कागृ २६, ९; जैगृ २,  
५ : १५; -क्षस्य निस्र ४, ११ :  
२२; -क्षाः अप ५५, ६, २;  
-क्षान् गोगृ २, ४, २; -क्षेषु  
कौस्र ७७, ९; -क्षौ निस्र ६,  
१० : २४.  
माहावृ(क्ष>)क्षी- -क्षी

निस्र ४, ११ : १४.

महावृक्ष-फल- -लानि गोगृ  
४, ५, १८; द्रागृ ४, १, ११.  
महा-वेदि- -दिः वीश्रौ १८,  
२१ : ७; आपश्रु ५, ८; वीश्रु;  
-दिम् वीश्रौ ९, १३ : २८;  
१०, १९ : ४×४; भाश्रौ; -देः  
काश्रौ १७, २, ६; आपश्रौ १४,  
२३, ११; २१, १८, १; हिश्रौ  
१६, ६, २६; जैश्रौका ६८; द्राश्रौ  
१४, ३, १०; लाश्रौ ५, ७, ९;  
वीश्रु ३ : २७; ३१; ४ : ४;  
-द्याः वीश्रौ ६, २२ : २२; २३ :  
८×४; -द्याम् आपश्रौ १४, ८,  
५; हिश्रौ १०, ८, १०; -द्यै  
वीश्रौ ११, २ : १०; १८, ५० :  
११; २५, २६ : १५; ३३ :  
१३.

माहावेदिक- -कम् हिश्रौ  
७, ४, ५८<sup>i</sup>.

माहावेदिक- -कम् भाश्रौ १२,  
६, ३<sup>i</sup>.

महा-वैराज<sup>j</sup>- -जम् वीध ३,  
१०, ११; गौध १९, १३.

महावैराजी<sup>k</sup>- -जी आश्रौ  
२, ११, १.

महा-वैश्वदेव<sup>l</sup>- पा ६, २, ३९.

महावैश्वदेव-ग्रहण- -णम्  
काश्रौ १०, ६, २.

महा-वैश्वामित्र<sup>m</sup>- -त्रम् क्षुस्  
१, ७ : २३.

महा-वैष्टम्भ<sup>n</sup>- -म्भम् क्षुस् २,  
१० : १९; ११ : ९; निस्र ३,  
१० : ३; -म्भस्य क्षुस् २,  
१० : १९; ११ : ९.

a) वस. । b) वैप १ द्र. । c) विष्णु-नामन्. । d) उप. = वृष्टि । e) = (वालखिल्यमन्त्रे-  
ष्वेतत्संज्ञकपिदृष्ट- ) विहार- ( पादव्यतिपन्न ) इति ( तु. सा [ ऐत्रा ६, २८ ] ) । f) = यज्ञिय-पात्र- । कस. ।  
g) = प्रवर्य देवता- । h) परस्परं पाभे. । i) परस्परं पाभे. । j) = साम-विशेष- । k) = इष्टि-विशेष- ।

महा-व्याधि- -धिम् आज्यो  
७,९.

महा-व्याहृति- -तयः वौश्रौ  
२७,१०:३; २८,११:११; कौश्रु;  
शांश्रु ४,९,३<sup>a</sup>; -तिभिः शांश्रौ  
२,१०, ३; १२,८; १४, ९××;  
काश्रौ; -तिभ्यः पाश्रु १, ५,  
५; -तीः वौश्रौ २८, १०:  
५; १३; २९, १३: २१; कौश्रु  
३, ६, ३; ७,१२<sup>b</sup>; १४, ४<sup>c</sup>;  
४,१, ४<sup>d</sup>; शांश्रु २, ९, २; ४,  
१,८; ५, १२; १७, ५; आश्रु;  
-तीनाम् शांश्रौ ४, २, ७; कौश्रु  
३, १५, ५; शांश्रु ३, १३, ५;  
-त्या शांश्रौ ४, २, २; वैश्रौ १२,  
६: १२; कौश्रु १, १०, ३; शांश्रु.

महा-व्याहृति-पूर्वक- -कैः  
अप ५, ३, ४.

महा-व्याहृति-सर्वप्रायश्चित्ता  
(त्-श्र)न्तर- -रम् कौश्रु १,  
५, २७<sup>e</sup>.

महा-व्याहृति-सर्वप्रायश्चित्त-  
प्राजापत्या(त्य-श्र)न्तर- -रम्  
शांश्रु १, ९, १२<sup>f</sup>.

महा-व्याहृति-सावित्री-  
शान्ति<sup>g</sup>- -न्तिम् अप ११,  
१, ५<sup>h</sup>.

महा-व्याहृति-होम- -मः  
काश्रौ २७, १, ४; विध ५४, १०;  
-मम् अप ६९, ३, १.

१महा-व्रत(वप्रा.)<sup>i</sup>- -तम् आश्रौ  
८, १३, ३१××; शांश्रौ; हिश्रौ  
१८, ३, २<sup>j</sup>; शेष ४०५<sup>k</sup>; विध  
५०, ५<sup>l</sup>; ११<sup>l</sup>; ५२, ३<sup>l</sup>; -तस्य  
शांश्रौ १३, १५, १३; १७, १, १;  
वाधूश्रौ ४, १०३: ३; ४<sup>l</sup>;  
द्राश्रौ १०, १, १<sup>k</sup>; लाश्रौ ३,  
९, १<sup>k</sup>; शांश्रु ६, ४, २<sup>l</sup>; ६<sup>l</sup>;  
-तात् आश्रौ ८, २, २२××;  
शांश्रौ; -ताय शांश्रौ १७, ७, १;  
-ते आश्रौ १२, ७, १३; शांश्रौ;  
-तेन लाश्रौ १०, ९, १; -तेषु  
हिश्रौ २३, ३, २७<sup>m</sup>.

महा-व्रतिक<sup>n</sup>- -कम्  
शांश्रौ १६, १४, २; ४; १८, २०,  
८; कौश्रु २, ७, १६<sup>o</sup>; -कानाम्  
वौश्रौ २३, ११: ३०; -कानि  
आपश्रौ २१, १७, ७; -के शांश्रौ  
१६, १४, ३; ५.

महा-व्रत-चतुर्य<sup>p</sup>- -थानि  
शांश्रौ १३, १५, ७.

महा-व्रत-त्व- -त्वम् वाधूश्रौ  
४, १०३: ३-५.

महा-व्रत-पृष्ठ<sup>q</sup>- -ष्ठः लाश्रौ १०,  
१३, १६.

महा-व्रत-वत्- -वान् आपश्रौ  
२२, २२, ९४; २०; वौश्रौ १६,  
२९: ४××; हिश्रौ.

महा-व्रत-विधान- -नेन विध  
५३, १.

महा-व्रत-शिल्प- -ल्पानि  
हिश्रौ १, ६, ६६.

महा-व्रत-सप्तम<sup>r</sup>- -प्तानि  
शांश्रौ १३, १५, १०.

महा-व्रत-सामन्<sup>s</sup>- -मा हिश्रौ  
१६, ६, ४.

महा-व्रतीय- -यम् शांश्रौ १२,  
२७, ४; १४, ४८, २; -ये  
काश्रौ २६, ७, ५६; वौश्रौ १४,  
२२: ४; १६, १८: १४: २०: ७.

महा-व्रतो(त-उ)दयनीय-  
-याम्याम् आपश्रौ २३, ९, ९;  
१५; हिश्रौ १६, ६, ३१<sup>t</sup>.

२महा-व्रत<sup>u</sup>- -तः या ३, १७.

महा-व्रीहि- पा ६, २, ३८;  
-द्वीणाम् कौश्रु ५४, ११; अप  
१६, १, ४.

महा-शाङ्गायन<sup>v</sup>- -नम् अप  
४३, ४, ३३.

महा(हा-अ)शन<sup>w</sup>- -नः या २,  
२७.

महा-शब्द- -ब्दाः अप ७०<sup>x</sup>,  
२, ४.

महा(हा-आ)शय<sup>y</sup>- -यः अप  
४३, ५, ११<sup>f</sup>.

महा-शल्क<sup>z</sup>- -ल्कम् विध ८०,  
१४.

महा-शाखा<sup>aa</sup>- -खाम् कौश्रु ४५.

महा-शान्ति- -न्तिः जैश्रु १, २३:  
१३; अप; -न्तिम् शांश्रु ५, ११,

a) सपा. आश्रु ३, ४, १ व्याहृतयः इति, यौध २, ९, १४ व्याहृतीः इति च पाठे. b) तयः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. शांश्रु ४, ५, १२)। c) तयः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. शांश्रु ४, १, ८)। d) तयः इति पाठः? यनि. शोधः। e) परस्परं पाठे. f) द्वस.। शान्ति- = (शान्ति-प्रतिपादक-) शान्ति-सूक्त-। g) शान्तिभिः इति संस्कर्तुः टि.। h) वैश्रु १ द्र.। विशेषः टि. द्र.। i) त्तः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ २३, ७, ६)। j) = व्रत-भेद-। k) क्रतु-नामन्- इति लाश्रौ. भाष्यम्। l) = प्रकरण-विशेष-। m) सप्र. आपश्रौ १९, १५, ७ समहा<sup>o</sup> इति पाठे.। n) तस्येदमीयप ठक् प्र.। o) सप्र. शांश्रु २, ११, १२ यातिकम् इति पाठे.। p) वस.। q) प्यनीम्याम् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ.)। r) = ऋषि-विशेष-। s) = मत्स्य-विशेष-। वस.। t) = दृष्यावजुःसंहिता-।



२; कौसू; -न्ती: अशां १६,  
१; -न्ते: अप ७०, १, ८;  
-न्त्या: अप ६९, ६, ४.

महाशान्ति-त्रयस्त्रिंशत्-  
-शत् अप ३३, ७, ७<sup>१</sup>।

महाशान्ति-विधान- -नेन  
अप ३१, ५, ६.

महा-शाम्यक<sup>b</sup>- -कम् कौगृ २, ५,  
३.

महा-शा(ला >)ल<sup>b</sup>- -लः  
वाधूश्रौ ४, ८९: ३१.

महा-शुद्ध- -द्रः कौसू १७, १६.

महा-संग्राम- -मम् वौश्रौ १८,  
४६: १; १९; ४९: १.

महा-सतोवृहती- -ती ऋअ १,  
१०, २; २, ६, ४८; १०, १३२;  
शुअ ५, ७२; ऋप्रा १६, ७७.

महासतोवृहत्य(ती-अ)न्त<sup>c</sup>-  
-न्तः ऋप्रा १८, १०.

महा-सतोसु(ख >)खा- -खा  
ऋप्रा १८, २७.

महा-सत्र- -त्राणि काश्रौ २४, ५,  
१५; निस् १०, ९: २१; कप २,  
३, २; आपध १, १२, १४; वौध  
२, ६, १; हिघ १, ४, १४.

महा-संवद्<sup>d</sup>- >माहासांपद्<sup>e</sup>-  
-देन वाधूश्रौ २, ४: १.

महा-सरित्- -रित् अप ६९, ४,  
२.

महा-सस्य- -स्यात् अप ५९,  
१, १०.

महा-सांतपन<sup>f</sup>- -नम् कागृ ७,  
४४; वौध ४, ५, १६४; विघ  
४६, २०४; -नेन विघ ४०, २.  
महा-सिद्धि- -द्धि: अप २१, ७,  
६.

महा(हा-अ)सुर- -रम् अप १,  
३८, १; अशां ८, १; -रै: अप  
३१, १, १.

महा-सूक्त<sup>g</sup>- -क्ता: <sup>h</sup> आगृ ३,  
४, २; कौगृ २, ५, १.

महा-सेन<sup>i</sup>- -नः मागृ २, १४,  
२९; -नम् वौध २, ५, २२.

महा-स्तोत्र- -त्रेषु वैताश्रौ ३३,  
१८.

महा-स्वन<sup>j</sup>- -नः अप ७०<sup>३</sup>, ५,  
३.

महाहन<sup>k</sup>- -नात् वौश्रौ १७,  
१०: ९.

महा-इविस्<sup>l</sup>- -वि: काश्रौ ५,  
२, ८; ७, ४; आपश्रौ २२, ८, १८;

काश्रौसं २९: ८; -विभि: वौश्रौ  
१७, ६०: १२; ६२: ७; २६,  
२९: १४; हिश्रौ ५, ३, ४०;

-विप: आपश्रौ ८, १२, १;  
-विपा वाश्रौ १, ७, ३, २४;

-विषाम् वौश्रौ २५, ३: १९;  
भाश्रौ ८, १३, १५; -विपि शाश्रौ

३, १५, १६; १४, १०, १६; काश्रौ  
५, ११, २८; -वि:पु वौश्रौ २१,  
६: १९; -वीपि वौश्रौ ५, १८:

१३; १५, ११: १<sup>३</sup>; १७, ५७:

१८; ६०: ११; ६२: ५.

महा-हविस्<sup>m</sup>- -वि: शाश्रौ  
१०, १८, ४; वौश्रौ १९, ७: ४०;  
माश्रौ ५, २, १४, ४; वाश्रौ १, १,  
३, १९; आमिगृ १, ७, १: ११;  
३, ४, १: ३४; वैगृ ५, ४: १२.  
महा(हा-आ)हुति- -ती: आपश्रौ  
१७, २०, १५; हिश्रौ १२, ६,  
२२.

महा-हेम- -मम्<sup>n</sup> अप १,  
४१, ६; अशां ११, ६.

महा-हे(हे, है, कौगृ.)म- > म-  
व(त >)ती<sup>o</sup>- -तीम् कौगृ १,  
१४, ११; शांगृ १, २२, १७.

महा-हैलिहिल<sup>p</sup>- पा ६, २,  
३८.

महा-होतृ<sup>q</sup>- -तार: भागृ ३, ५:  
१२.

महा-हृद्- -द्म याशि १, ३४;  
-दे अप १, ४४, ९.

महिमन्<sup>r</sup>- पा ५, १, १२२;  
-हिना<sup>s</sup> आश्रौ ३, १२, ९;

काश्रौ ९, ३, १८<sup>५</sup>; आपश्रौ;  
हिश्रौ २४, १, २१<sup>१</sup>; -हिमनः

ऋप्रा ८, ३<sup>१</sup>; -हिमा काश्रौ  
७, ८, ८; आपश्रौ; वौध २,

१०, ८<sup>६</sup>; १०<sup>४</sup>; -हिमानः  
आपमं २, २०, ३०; कौगृ ३,

१५, २; शांगृ; -हिमानम्  
आश्रौ १, ३, २२××; शाश्रौ;  
माश्रौ १, ४, २, ६<sup>६</sup>; या ३, २२<sup>६</sup>;

a) मह<sup>१</sup> इति पाठः? यनि. शोधः (तु. संस्कृतः टि.) । b) = ऋपि-विशेष- । c) वस. । d) = भग्न्यु-  
पस्थान-विशेष- । e) तदस्यप्रयोजनमित्यर्थे ऋण् प्र. उसं. (पावा ५, १, ११०) । f) = कृच्छ्रव्रत-विशेष- ।  
g) = (महासूक्त [ऋ १०, १-१२८] संवन्धिन्-) ऋपि- । h) क्षुद्रसूक्ताः महासूक्ताः इत्यस्य स्थाने सप्र. शांगृ ४,  
१०, ३ क्षुद्रसूक्तमहासूक्ताः इति पाभे. । i) = विनायक-विशेष- । j) पाठः? महाह- (=मथ्याह-) इति शोधः  
(तु. संस्कृतः टि.) । k) = [साकमेधान्तर्गत-] इष्टि-विशेष- । वैप २, ३खं. द्र. । l) वैप १ द्र. । m) यं  
महाहेमम् > यं मामहे इति संस्कृतः टि. ? । n) = गाथा-विशेष- । o) उप. अर्थः ? । p) = मन्त्र-विशेष- ।  
q) पाभे. वैप १, २३९६ ट द्र. । r) पाभे. वैप १, २३९६ ष द्र. । s) पाभे वैप १, २३६५ वृ द्र. ।

-हिमानौ काश्री २०, ५, २<sup>३</sup>;  
 आपश्री २०, १२, ६<sup>३</sup>; १३, २<sup>३</sup>;  
 वीश्री १५, २२; १३<sup>३</sup>; २६, ८; ५<sup>३</sup>;  
 माश्री ५, १, ३, २७; वाश्री ३, ४,  
 २, १५<sup>३</sup>; ४, २३<sup>३</sup>; हिश्री १४, ३,  
 ८<sup>३</sup>; -हिमाभ्याम् वीश्री २६, ८:  
 ६<sup>३</sup>; -हिमः आश्री १०, ९, ५;  
 शाश्री १६, ७, १; १२; वैश्री  
 १७ : ८; -हिम्रा आश्री १०, ९,  
 ४; काश्री २०, ७, १६; आपश्री;  
 -हिमि आश्री ५, ५, २०;  
 -ऋदिसे आपश्री १९, १७, ४;  
 वीश्री १४, १४ : ५; माश्री;  
 -हिमोः<sup>३</sup> आपश्री २०, २०,  
 ३; वीश्री १५, १५ : ९; ३८ :  
 ७; वाधुश्री ३, ७६ : २१; वाश्री  
 ३, ४, २, १३; हिश्री १४, ४, ४१.  
 महे (हा-इ)न्द्र- -न्द्रः आश्री  
 २, १८, १८; शाश्री; -न्द्रम्  
 आश्री १, ३, ११; शाश्री; शंघ  
 २१६ : ९<sup>३</sup>; -न्द्रस्य शाश्री १, ९,  
 २<sup>३</sup>; आपश्री; -ऋन्द्राय आपश्री  
 १, २, ६; वीश्री; -न्द्रेण वीश्री  
 ८, ८ : १६<sup>३</sup>; वाश्री ३, २, ५,  
 ५७<sup>०</sup>.  
 माहेन्द्र<sup>१</sup>- पा ४, २,  
 २९; -न्द्रः शाश्री ३, १५, १८;  
 १४, ८, ५; काश्री ५, ७, ६; ११,  
 २८; १४, ५, ३९; आपश्री; -न्द्रम्  
 शाश्री १, ३, १७; १७, ११, १;  
 काश्री; अप ५७, ४, १<sup>०</sup>; ३<sup>०</sup>;  
 -न्द्रस्य शाश्री १, ८, १३;  
 आपश्री; अप ५७, ४, ७<sup>०</sup>;  
 -न्द्रात् आपश्री १८, २, १७; ४,

१; १२, ११; वीश्री; -न्द्राणि  
 आश्री ९, २, १६; -न्द्राय वीश्री  
 ८, ७ : २५; ८ : ७×४; -न्द्रे  
 वैश्री १६, ९ : १३; -न्द्रेण वाश्री  
 ३, १, २, २७; वैश्री १७, १६ : ३;  
 माहेन्द्री- -न्द्री  
 आश्री २, १८, १७<sup>३</sup>; अशां १६,  
 १६; -न्द्रीम् अप<sup>३</sup> ५४, २, ४;  
 ६२, ४, ६; ६८, ३, ९; ७०<sup>३</sup>, १७,  
 १; ७१, १९, ८; अशां १७, ३<sup>६</sup>;  
 शुअ १, ४७९<sup>३</sup>; ३, ६३<sup>३</sup>; -न्द्रयाम्  
 वैताश्री ९, ६<sup>३</sup>; अशां १८-१९, ४<sup>६</sup>.  
 माहेन्द्र-काल- -ले  
 वाश्री ३, १, १, ३१; २, १, ४३;  
 ४५; ३, २, ७.  
 माहेन्द्र-जाल-  
 प्रभृति-कर्मा(र्म-आ)दि-  
 -दिषु अप ३, १, १३.  
 माहेन्द्र-प्रभृति-  
 -तीनि हिश्री १३, २, १९; ६,  
 ४१.  
 माहेन्द्र-शुनासीरीय-  
 -वी शाश्री १४, १०, ११.  
 माहेन्द्र-स्तोत्र- -त्रम्  
 हिश्री १६, ३, १८<sup>३</sup>; ६, ४३<sup>३</sup>;  
 १७, ५, २३.  
 माहेन्द्रस्य-स्तुत-  
 -तम् आपश्री २१, २०, ६<sup>३</sup>.  
 माहेन्द्रस्य-स्तोत्र-  
 -त्रम् आपश्री १३, ८, ५<sup>३</sup>; १८,  
 १५, १०×४; २१, ६, १७<sup>३</sup>;  
 वीश्री; -त्रे आपश्री २१, १९,  
 १; वीश्री.  
 माहेन्द्रा(न्द्र-आ)

दि- -दि काश्री १४, ५, २९;  
 १५, ७, २३; -दौ काश्री १५, ५,  
 १६.  
 माहेन्द्रा(न्द्र-अ)न्त-  
 -न्ते काश्री १४, २, १६.  
 माहेन्द्र-चाप- -पः अप ७०<sup>३</sup>;  
 ११, ११.  
 माहेन्द्र-याजिन्- -जिनः  
 आपश्री १, २, ७; भाश्री; -जी  
 वीश्री १, ३ : १७×४; भाश्री.  
 माहेन्द्र-रेखा- -खा अप ७०<sup>३</sup>;  
 ११, ११.  
 माहेन्द्र-सदन- -नम् वृदे ४,  
 ७६.  
 माहेन्द्रस्य (अयन-) लाश्री  
 १०, १३, १६.  
 माहेन्द्रा, न्द्री]य<sup>३</sup>- पा ४, २,  
 २९.  
 माहेन्द्रे(न्द्र-इ)ज्या- -ज्याम्  
 वीश्री २३, १७ : १०; ११.  
 महे(हा-ई)श्वर- -र अप ३६,  
 ९, ३<sup>३</sup>; -रः वैश्री १, २ : १७<sup>३</sup>;  
 अप ४०, ४, २; ३; ५; -रस्य अप  
 ४०, ३, १.  
 महे(हा-इ)ष्वास<sup>१</sup>- पा ६, २,  
 ३८.  
 महे(हा-ऐ)त्रेय<sup>३</sup>- -यम् आश्री ३,  
 ४, ४; कौश्री २, ५, ३; शांश्री ४, १०,  
 ३; ६, १, १; अप ४३, ४, ३६.  
 महो(हा-उ)क्ष- पा ५, ४, ७७;  
 -क्षम् वाधुश्री ४, ५२ : ४.  
 महो(हा-उ)क्षन्- -क्षणम् वांघ  
 ४, ८.  
 महो(हा-उ)ष्पात- -तम् अप

a) =(तदास्य-)ग्रह-द्वय- । b) =पर्वत-विशेष- । c) =माहेन्द्र-स्तोत्र- । d) वैप १ द. ।  
 e) =मण्डल-विशेष- । f) =इष्टि-विशेष- । g) =शान्ति-विशेष- । h) =[माहेन्द्रग्रहदेवत्या-] ऋच्- । i) =[महेन्द्र-  
 देवत्या-] ऋच्- । j) सपा. ऋस्तोत्रम् <> ऋस्तोत्रम् इति पामि. । k) सपा. ऋस्तोत्रम् <> ऋस्त्य  
 ननुतम् इति पामि. । l) =घनुर्-विशेष- इति वापाभा. । m) व्यप. ।

७०<sup>३</sup>, ७, १२; -ता: अप ६८, ५, १४; १७.

महो(हा-उ)त्साह<sup>२</sup>- -हः शंघ २४४.

महो(हा-उ)द(य>)या<sup>२</sup>- -याम् सु १५, २.

महो(हा-उ)दर<sup>२</sup>- -रः वौश्रौप्र २२ : २; -रा: वौश्रौप्र १४ : १; -राय अप ४३, ५, ५२<sup>३</sup>.

महो(हा-उ)दर-मुजो(ज-उ) रस्क- -दीर्घ-केश-नख-द्विज<sup>०</sup>- -जा: अप ६८, १, २१.

महो(हा-ऊ)र्मि- -र्मिभिः अप ७०<sup>३</sup>, ११, १६.

महौ(हा-ओ)जस्<sup>२</sup>- -जसाम् अप ५५, ६, ४.

महौ(हा-ओ)दवाहि<sup>२</sup>- -हिम् आय ३, ४, ४; शांय ४, १०, ३.

महौ(हा-ओ)षघ<sup>२</sup>- -घम् अशां २१, ४.

महौ(हा-ओ)षधि- -धिम् वृदे ८, ५६.

महौमहन्- -पाउभो २, १, २७८; -ह्ना आपमं २, १८, ९; कौस् ७०, ६; कुंया १०, १०; ११, ३७.

महयित्वा भाय २, ५ : १-२×५.

महस(र, )<sup>०</sup>- -पाग ५, १, १३०; -हः ऋश्रौ १, ३, १४×५; शांश्रौ;

माश्रौ २, १, १, ५<sup>३</sup>; वैश्रौ १, ३: ८<sup>३</sup>; ऋश्रामिग २, ६, ३ : १३<sup>३</sup>; ८ : २५<sup>३</sup>; कप्र २, १, ६<sup>३</sup>;

शंघ १०७<sup>३</sup>; ऋवौघ २, ५, २०<sup>३</sup>;

१०, ३२<sup>३</sup>; ३३<sup>३</sup>; निघ १, १२<sup>३</sup>; या १४, ११<sup>३</sup>; -ऋहसः

गोय ४, १०, १५; द्राय ४, ४, १८; -ऋहसे आपश्रौ १९, ७, ६;

माश्रौ १, ६, ३, १६<sup>३</sup>; वाश्रौ; -ऋहांसि आश्रौ २, १८, ४; शांश्रौ

६, ३, ८; आपश्रौ; -होभिः आश्रौ ४, १३, ७<sup>३</sup>; -ऋहोभ्यः

आश्रौ ३, १, १४; आपश्रौ २०, ११, १८; वैताश्रौ १८, ६.

माहस- पा ५, १, १३०.

महर्-लोक- -कम् शंघ ११६ : ६६.

ऋमहस-वत्- -वतः माश्रौ ५, १, १, ३९.

महस्वती- -ती अप ४८, ७४<sup>३</sup>.

महा अप ३६, १, १४<sup>३</sup>.

ऋमहाम<sup>०</sup> आश्रौ ७, ५, २०<sup>३</sup>; शांश्रौ १२, ३, ६; ७<sup>३</sup>; १४, १६, १<sup>३</sup>;

१७, ८, ८<sup>३</sup>.

महि<sup>०</sup>- -हि ऋआश्रौ २, ८, ३; १०, २१<sup>३</sup>×५; शांश्रौ; वैताश्रौ ६, १<sup>३</sup>;

ऋअ २, ५, ३३<sup>३</sup>; ऋया ११, ९<sup>३</sup>; तैप्रा ६, २<sup>३</sup>.

महित्री<sup>२</sup>- -पाग ५, २, ६१.

माहित्र<sup>०</sup>- -पा ५, २, ६१; -त्रम् शांश्रौ २, १२, ६; वाघ २६, ५; वृदे ८, ८६; -त्रेण भाश्रौ ६, ४, ४; वैश्रौ २, ८ : ८; हिश्रौ ६, ६, १६.

ऋमहि-त्व- -त्वम् शांश्रौ २,

४, ३; वौश्रौ; या ४, ११; ६, ८<sup>३</sup>; ७, २३<sup>३</sup>; -त्वा<sup>०</sup> आपश्रौ

५, ९; ११×५; वौश्रौ; -त्व<sup>०</sup> आपश्रौ २२, १२, २०; वौश्रौ.

महि-त्वन<sup>०</sup>- -नम् आपमं २, २, ४<sup>३</sup>.

महि-भाय- -०य आश्रौ ४, ११, ६<sup>३</sup>.

ऋमहि-वृध<sup>०</sup>- -वृधे<sup>०</sup> आश्रौ ७, ११, ३४; शांश्रौ.

ऋमहि-व्रत<sup>०</sup>- -०त छसू १, ९ : ३; ४; या ३, १७<sup>३</sup>.

✓महीय, महीयते वौश्रौप्र ५४ : १९<sup>३</sup>; कौय ३, १०, ३५; आमिग.

महीयमान, ना- -नाः वौश्रौ ११, ११ : ४; -नाम् ऋप्रा ९, ४१<sup>३</sup>.

महीया<sup>०</sup>- -या हिश्रौ १०, ५, ३४; -याम्<sup>०</sup> आपश्रौ १३, २२, ५; वैश्रौ १६, २७ : ३;

हिश्रौ ९, ५, ४८.

म(हि >)ही-षाह- -षाट् अप्रा ३, ४, १.

ऋमहिन्<sup>०</sup>- -हिनः आश्रौ २, ९, १४; ३, ७, १०.

ऋमहिनी- -०नि आपमं २, १८, ९; या ११, ३७<sup>३</sup>.

महिन- -पाउ २, ५६.

मामहान- -नः शुप्रा ३, १२९<sup>३</sup>.

मंह, मंहन- -प्रय. ✓मंह. मक् पाग १, १, ३७.

- a) वस. । b) व्यप. । c) वस. > द्रस. > कस. > वस. > द्रस. । d) = अपामार्ग- । e) वैप १ द्र. । f) पामे. पृ १८८७ d द्र. । g) = व्याहृति-विशेष- । h) = उदक- । i) पामे. वैप १, १५३५ j द्र. । j) वैप १, २३९९ k द्र. । k) पामे. वैप १, १४३८ g द्र. । l) वैप १, २४०० c द्र. । m) पामे. वैप १, २४०० g द्र. । n) <महि त्रीणाम् (ऋ १०, १८५, १) । o) = सुक्त-विशेष- । p) पामे. वैप १, २४०१ e द्र. । q) वैप १, २०४६ j द्र. । r) पामे. वैप १, २४०१ k द्र. । s) = ऋग्-विशेष- (ऋ ८, ४८, ३) । t) पामे. पृ ५३६ h द्र. । u) = महत्- ।

मक- पाग २,४,३१<sup>a</sup>.  
 मकथु-(>माकथेय<sup>b</sup>- पा.) पाग ४,  
 १,१२३.  
 श्मकर<sup>c</sup>- रैः अप ६१,१,७.  
 मकर-संस्थित- ताः अप ६२,३,२.  
 रमकर-(>माकरायण- पा.) पाग ४,  
 २,८०.  
 मकरी-(>री-प्रस्थ- पा.) पाग ६,  
 २,८७.  
 मकष्टु<sup>d</sup>- (>माकष्टेय<sup>b</sup>- पा.) पाग  
 ४,१,१२३.  
 म-कार- प्रथ. म- द्र.  
 मकि<sup>e</sup> अप ४८,१२६<sup>f</sup>.  
 मकुर- पाठ १,४०.  
 मक्कोल- पाठभो २,३,११५.  
 √मक्ष<sup>g</sup> पाधा. भ्वा. पर. संघाते.  
 मक्ष<sup>h</sup>->मक्षा<sup>i</sup>- क्षाः अत्र ९,१<sup>f</sup>.  
 मक्षिक,का<sup>j</sup>- पाठ ४,१५४; पाठभो  
 २, २, १८; पाग ५, २, ९७;  
 पावाग ४, ३, ११६; -का जैगृ  
 १,३ : ३; शंघ १६९; विघ २३,  
 ५२; -काभिः वाघ ३, ४६;  
 -कायाम् वौश्रौ २, ५ : २१;  
 -कैः वौगृ ४, ९, ५.  
 माक्षिक- पावा ४,३,११६.  
 मक्षिका-भशक- कैः शंघ ४३१.  
 मक्षिकाल- पा ५,२,९७  
 मक्षिमु<sup>k</sup>- क्षु>क्षु आपथौ १९,१९,  
 ८; वौश्रौ १३,१७:७; माथ्रौ ५,  
 १, ६, ७; हिथ्रौ २२, ३, ७;  
 कागृ ३८, २; अप ४८, १०६;  
 वृदे ६,७३; चात्र ४१:९; निघ  
 २,१५; ऋप्रा ७,५; तैप्रा ३,१३;  
 पा ६, ३,१३३.

मक्षु-ग(म>)मा- -माभिः ऋप्रा  
 ७,९<sup>f</sup>.  
 रमक्षु-[>यक. माक्षव्य- (>माक्ष-  
 व्यायान>]नी-पा.] पाग ४,  
 १,१०५<sup>f</sup>;१८.  
 √मख्, ड्ख् पाधा. भ्वा. पर. गतौ.  
 मख<sup>l</sup>- पाठभो २,२,४७; पाग ५, २,  
 २४<sup>m</sup>; -फैखः आपथौ १५, ३,  
 ७; वौश्रौ; -खम् ऋप्रा ७, ५४;  
 -फैखस्य काथ्रौ १६,३, २२××;  
 आपथौ; -खाय फैकाथ्रौ २६,  
 १,१०;१२;१४,१६××;आपथौ;  
 कौगृ १,१६,७<sup>f</sup>; शांगृ १, २४,  
 ४<sup>f</sup>; -खे वृदे १, ११५; ३,  
 ४५; -खेभ्यः या ३,२१<sup>f</sup>; -खेपु  
 अप ३, ३, ७.  
 मख-जाह- पा ५,२,२४.  
 फैमख-हन्- -क्ते आपथौ १२,२०,  
 ३<sup>f</sup>; वौश्रौ.  
 मगदिन्-(>मागद्य- पा.) पाग ४,  
 २,८०.  
 मगद्य,घा<sup>n</sup>- पाठभो २,२,१७६; पाग  
 ३, १, २७; ४, २, १३८; -घाः  
 अप ५१, ४, ४; -घायाम् अप  
 ५१, १, ३; -घेभ्यः अप्रा ३,  
 ४, १<sup>f</sup>.  
 ममागघ<sup>o</sup>- पा ४,१,१७०; -घाः  
 अप १,७,२; ५०, ३, ३; -घैः  
 अप ३३,३,३;  
 मागघ-देश->श्रीय-  
 -याय काथ्रौ २२, ४,२४; लाथ्रौ  
 ८, ६,२८.  
 मागघ-प्रस्थ-संमि(त>)ता  
 -ता अप ३३,२-३,५.

मागघ-वङ्ग-मत्स्थ- -स्त्या<sup>p</sup>  
 अप १,७,७.  
 मगधीय- पा ४,२,१३८.  
 मगन्द्<sup>q</sup>- -न्दः या ६,३२<sup>q</sup>.  
 मगुन्दी<sup>r</sup>- -न्द्याः अप्रा ३,४,१<sup>f</sup>.  
 मगुश- पाठभो २,३,१४९.  
 मगन्- √मज्ज् द्र.  
 मघ-, मघ-वत्- प्रथ. √मह् द्र.  
 मघण्टु<sup>s</sup>- (>माघण्टेय<sup>b</sup>- पा.) पाग  
 ४,१,१२३.  
 मघा<sup>t</sup>- पाठना ५,८२<sup>1</sup>; -घा अप १,  
 ३८,३; ३१, ८, ६; अशां ८,३६;  
 वेज्यो ३६; -घाः अप १,१, २;  
 २-३,१; ५,१; ११,२<sup>f</sup>; १२,१;  
 ३३, ११; ५७, १,१; -घानाम्  
 अप ५०,४,२; -घाभिः आपगृ  
 ३,१<sup>f</sup>; भागृ १,१२ : १७<sup>f</sup>; अप  
 १,९,९; २८,१; ४३,८; ४८,  
 ५; -घाम्यः वौश्रौ २८, ४ : ५;  
 शांगृ १, २६, ८; वैगृ ३,२० : ५;  
 अशां १२, २; -घाम् अशां २,  
 ३; -घासु आमिगृ २, ५,१२ :  
 २; जैगृ २, ५ : १९; कौस् ७५,  
 ५<sup>f</sup>; अप.  
 मा(घ>)घी<sup>u</sup>- -घी काथ्रौ १३,  
 १,८; विघ ७६,१; ९०, ६; मांस्  
 ६, ५, ३२; -घ्याः शांथ्रौ १५,  
 १२, ३; हिथ्रौ १६, ५, १७;  
 वैताथ्रौ ३२, १; ३६,४; आपगृ;  
 -घ्याम् शांथ्रौ ३,१८,१८; १५,  
 १२, १०; वौगृ ३, ९, २; भागृ  
 ३, ८ : १२; वौघ १, ५, १४३;  
 विघ ९०, २०; -घ्यै आपथ्रौ  
 २१,१५,६; वौश्रौ १६,१३ : ४.

a) मल- इति पाका. । b) डे उवर्णस्य लोपः (पा ६,४, १४७) । c) वैप १ द्र. । d) व्यप. ।

e) प्रतिषेधे अन्व. । f) तु. BPG. । g) तु. पाका. । मक्षु- इति भागडा. पाति. । h) अर्थः ? । i) पाभे.

पृ १०३७ k द्र. । j) = जनपदविधिप- वा तद्राजन्- वा । l) = कुलोदिन्- । वैप १, २१८८ j द्र. ।

l) <√मङ्घ् । m) पाभे. वैप १ परि. ऋप्रासु ऋ २०,८५, १३ टि. द्र. । n) = पौर्णमासी- ।

माघ<sup>१</sup>- -वः वेज्यो ६;  
 -घस्य शांश्रौ १३, १९, ३-४;  
 -घे वाघुश्रौ ४, २८ : ११; वौगृ  
 २, ११, ३; कौसू ८३, ५१;  
 अप ७१, ७, ४; विघ ९०, २७;  
 वैघ २, १२, ७.  
 माघ-प्रौष्टपद- -दयोः  
 वैगृ ४, ३ : १.  
 माव-फाल्गुन- -नयोः  
 अप ५५, ४, १; -नौ विघ ९०,  
 २९.  
 माघ-मास- -से वौश्रौ  
 २६, २९ : ६; अप ९, ४, ६.  
 माव-शुक्लपक्ष-प्रतिपद्-  
 -पदि कौगृ ३, ८, २<sup>b</sup>.  
 माघ-शुक्ल-प्रतिपद्-  
 -पदि शांगृ ४, ६, १<sup>b</sup>.  
 माघ-शुक्ल-प्रपन्न- -न्नस्य  
 वेज्यो ५.  
 माघ-श्रावण- -णयोः  
 वेज्यो ७.  
 माघी-पक्ष-यजनीय- -ये  
 काश्रौ १५, १, ४.  
 मघा-त्रयोदशी-श्राद्ध- -द्धम् कागृउ  
 ४३ : २०.  
 मघा-नक्षत्र-जात- -तानाम् सु ४,  
 ६.  
 मघा-भाग- -गे अप १, ६, १०.  
 मघा-यु(क्त>)क्ता- -क्तम् शंघ  
 १९३.  
 मघा-यु(त>)ता- -ता विघ ९०, ६  
 मघी<sup>०</sup>- (>मघी-प्रस्थ- पा.) पाग ६,  
 २, ८७.

मघोनी- ✓महू द्र.  
 मघनी- (>मघनी-प्रस्थ- ) मघी-  
 टि. द्र.  
 ✓मङ्क् पाधा. भ्वा. आत्म. मण्डने.  
 मङ्कट- (>°टिन्- पा.) पाग ४, २,  
 ८०.  
 मङ्कण- पाउभो २, २, १२४.  
 मङ्किल<sup>d</sup>->माङ्किल- -०ल वैघ ४,  
 ८, १२<sup>e</sup>.  
 मङ्किल-वत् वैघ ४, ८, १२<sup>f</sup>.  
 मङ्कीर<sup>d</sup>- -रस्य<sup>१</sup> आपश्रौ २१, २०,  
 ३; वौश्रौ १६, २३ : ४; हिश्रौ  
 १६, ६, ४१.  
 मङ्कीर-दासक- -कौ वौश्रौ १६,  
 २३ : ७<sup>h</sup>।  
 मङ्किल<sup>d</sup>->माङ्किल- -०ल  
 वौश्रौ प्र ५३ : २<sup>e</sup>.  
 मङ्किल-वत् वौश्रौ प्र ५३ : २<sup>f</sup>.  
 मङ्किल- पाउभो २, १, २२४.  
 मङ्किल- पाग १, १, ३७.  
 मङ्किल- [ >माङ्किल- (>°व्याय-  
 [त>]ती-)] मङ्किल- टि. द्र.  
 ✓मङ्क् ✓मख द्र.  
 मङ्क- पाउभो २, २, ४४.  
 ✓मङ्ग् पाधा. भ्वा. पर. गतौ.  
 मङ्गल<sup>१</sup>- पाउ ५, ७०; पाग २, ४, ३१;  
 ४, १, ४१; -लम् सु १, ४<sup>२</sup>;  
 कौसू ७५, ५; अप १, ३५, १<sup>२</sup>; २<sup>२</sup>;  
 गौघ ८, २१; या ९, ४<sup>३</sup>।  
 आज्यो १०, २; -लात् वृदे १,  
 २५; ३२<sup>२</sup>; -लानि वाश्रौ १, १,  
 १, ७९; आपगृ; -लाय निसू १,  
 ११ : १७; -लैः अप १८<sup>२</sup>, १, २.

मङ्गली- पा ४, १, ४१.  
 माङ्गल<sup>१</sup>- -लः वौश्रौ २४, २ : ४;  
 -लानि आश्रौ ४, १५, ७.  
 माङ्गल्य- -त्यम् विघ २७, ६;  
 -ल्यानि आगृ ४, ६, ६; -ल्ये  
 मागृ १, ११, १६<sup>k</sup>.  
 मङ्गल-दर्शन- -नम् शंघ २५०.  
 मङ्गल-पाठक- -कैः अप १९<sup>२</sup>, ४, ५.  
 मङ्गल-युक्त, क्ता- -क्तम् वैगृ २, ५ :  
 ४; ३, २२ : ३; २३ : २; -क्तम्  
 वैगृ ३, १० : ४.  
 मङ्गल-योग- -गः वैगृ ५, १४ : २.  
 मङ्गल-वादिन्- -दिभिः अप १९<sup>२</sup>,  
 ४, ३.  
 मङ्गला( ल-आ )चार-तत्पर- -ता-  
 -ता विघ २५, ८.  
 मङ्गला( ल-अ )मङ्गल-वचन- -नम्  
 पावा ५, ४, ४२.  
 मङ्गला( ल-अ )र्थ- -र्थः पावा १, ३,  
 १; -र्थम् कागृ ४०, ७; कागृउ  
 ४४ : २१; वागृ ४, १९; अप  
 ३, २, २.  
 मङ्गलिक<sup>१</sup>- -?केभ्यः<sup>१</sup> अप ४६,  
 १०, २९; अत्र १९, २३.  
 मङ्गल्य, ल्या<sup>१</sup>- -त्यम् माश्रौ २, १,  
 २, २८; वैगृ ५, ६ : २४; विघ  
 २३, ५७; ५९; ७२, ५; १००,  
 २; -ल्याः अप ७०<sup>३</sup>, ३, ३;  
 -ल्यान् अप १९<sup>२</sup>, ४, १;  
 -ल्यानि भागृ १, ११ : ८; मागृ  
 १, ८, ५; ६; कौसू ४३, १५;  
 -ल्याभिः गोगृ २, ७, १२;  
 -ल्याय वैगृ ५, १२ : २; -ल्यैः

a) =मास-विशेष- । b) परस्परं पाभे. । c) तु. पाका. । मघी- इति भाण्डा. प्रमृ. । d) व्यप. ।  
 e) सपा. माङ्किल <> माङ्किल इति पाभे. । f) सपा. मङ्किल <> मङ्किल इति पाभे. । g) सपा.  
 मङ्कीरस्य <> मङ्गीरस्य <> मन्दीरस्य इति पाभे. । h) सपा. मङ्कीरदासकौ <> मङ्गीरदासकौ  
 इति पाभे. । i) वैप १ द्र. । j) तदस्यप्रयोजनमित्यर्थे अण् प्र. उंसं. (पावा ५, १, ११०) ।  
 k) म° इति Knauer. ।

वागृ १६, ७, ७.

मङ्गल्य-नामन्<sup>२</sup>-ञ्चः आपश्चौ  
१८, १९, ६; १९, १०, २; वाश्चौ  
३, ३, ३, ३, १; हिश्चौ १३, ६, ३, १;  
२३, १, ५२.

मङ्गल्य-वच्-वान् वैध ३, ५,  
७.

मङ्गीर<sup>३</sup>-रस्य वैताश्चौ ३४, ९९.

मङ्गीर-दासक-कौ वैताश्चौ ३४,  
९९.

मङ्गुप<sup>४</sup>-(>माङ्गुप्य- पा.) पाग  
४, १, १५१.

✓मङ्घ् पाधा. भ्वा. पर. गत्याक्षेपे  
कैतवे, मण्डने च.

✓मच् पाधा. भ्वा. आत्म. कल्कने.

मचक->मचक-चात(न>)नी<sup>५</sup>-  
न्याः शांत् १, २, ३, १<sup>६</sup>.

मच्छ-पाठभो २, २, ८३.

✓मज्, मजायेम अप ४८, ११५१.

मजिरक<sup>६</sup>-(>माजिरक- पा.) पाग  
४, १, ११२.

✓मज्जु (<✓मस्ज्), मज्जते अप ६८,  
२, ५; मज्जति अप ३, ३, ३; ४,  
६, २; ६९, ७, १; वाध २, ३०;  
वौध २, १, ५२; विध १२, ८;  
याशि १, ३५; मज्जसि वाधूश्चौ ३,  
१०५:४.

मज्जयति काश्चौ ५, ५, २९; १०,  
९, ३; या ९, ४.

मग्न्, म्ना-मनः अप ६८, ५, २;  
विध ४६, ५; या १४, ७;

-मस्य काश्चौ २०, ८, १६;

-न्तानाम् शोध ४; -न्नाम्  
आपश्चौ १०, १९, १; भाश्चौ १०,  
१२, ६; हिश्चौ १०, ३, ७.

मज्ज(त>)ती-तीम् कौस् ४२,  
१९.

मज्जन-नम् काश्चौ १९, ५, १४;  
विध २८, ५; ४६, ४; -नात्  
या ९, ५.

मज्जयतु-यता पागृ २, १, १८<sup>१६</sup>;  
मज्जयित्वा शांत् ५, २, ७.

मज्जुक<sup>७</sup>-काः या ९, ५६.

मज्जन्<sup>८</sup>-पाठ १, १५९; -ज्जसु

आपमं २, ११, १९; -ज्जा वैश्चौ  
१३, १७: १०; विध २२, ८१;

वृदे ७, ७९; या १४, ६; अप्रा  
२, ३, १२; -ज्जानम् कागृ ६५,  
६; अप्राय २, ९; वाध २०, २६<sup>१६</sup>;

गौध २४, ८; शुप्रा ४, १६१;  
-ज्ज्जा आपश्चौ १६, १९, १;

वैश्चौ १८, १६: ९; हिश्चौ ११,  
६, ३१.

मज्ज-तस्(ः)दाश्चौ ५, २, ३; लाश्चौ  
२, ६, १.

मज्जा<sup>९</sup>-पाठभो २, १, २७८; -ज्जाः

जैगृ २, ३: १२; -ज्जानाम् भाश्चौ  
११, १५, २३; -ज्जाभिः वाध  
२०, २६<sup>१६</sup>; -ज्जाम् हिश्चौ २४,  
६, १८<sup>१</sup>; अप ७१, ८, ३.

मज्जान्तस्(ः) या १४, ६.

मज्जा-रुधिर-वर्षम् अप ७२, ३, ४.

मज्जा-रूप-न्म अपश्चौ १५,  
१५, १<sup>६</sup>.

मज्जा(जा-ञ्च)स्थि-स्नेह-मांस-सम्.  
अप ७०<sup>३</sup>, १८, २.

मज्जि-जयः<sup>१०</sup> शांश्चौ १८, २१, ११;  
काश्चौ १३, २, २४.

मज्जुका<sup>११</sup>-का कागृ ६२, ४.

मज्जमन्<sup>१२</sup>-ज्जमना अप ४८, १०३;  
निध २, ९.

✓मज्ज् पाधा. भ्वा. आत्म. धारणोद्घाय-  
पूजनेषु.

मज्ज-पाठभो ३, २, ८२; पागृ ४,  
२, ९०; -ज्जम् वौश्चौ १९, १०:  
५७.

मज्ज-क-पागृ २, ४, ३१.

मज्जीय-पा ४, २, ९०.

मज्जरी-पाठभो २, ३, ३८.

मज्जरित-पा ५, २, ३६.

मज्जि<sup>१३</sup>->मज्जि-पा ८, ३, ९७.

मज्जिष्टा<sup>१४</sup>->माज्जिष्ट<sup>१५</sup>-ष्टम् आगृ:  
१, १९, ११; कौगृ २, १, ९;  
वाध ११, ६५; आपध १, ३,  
१; हिध १, ७३; -ष्टाः अप.  
५८, १, ७.

माज्जिष्ट-हारिद्र<sup>१६</sup>-द्रे गौध १,  
२३.

मज्जरी-पाठभो २, ३, ४८.

मज्जरीक<sup>१७</sup>-(>माज्जरीक- पा.) पाग  
४, १, ११२.

मज्जु-(>मज्जु-ल्- पा.) पाठभृ १,  
३७; पागृ ५, २, ९७.

मज्जुपा-पाठ ४, ७७.

मट्मट<sup>१८</sup>-टाः अप्रा ३, ४, ११.

✓मठ् पाधा. भ्वा. पर. मदनिसायोः.

a) वस. । b) व्यप. । c) पाभे. पृ १९९९ g द्र. । d) पाभे. पृ १९९९ h द्र. । e) = श्रोपधि-  
विशेष- । व्यु. ? । <मशक<sup>१</sup> इति MIV. । f) सपा. कौगृ १, १५, १ मशकादन्याः इति पाभे. । g) पाभे. वैप १,  
२५१६० द्र. । h) मण्डक-पर्याय- । i) वैप १ द्र. । j) सपा. मज्जाम् <>मज्जारूपम्  
इति पाभे. । k) पाठः ? मतयः इति PIV. शोधः । l) अर्थः व्यु. च ? । वपा-यूप- इति भाष्यम् । m) अर्थः  
व्यु. च ? । n) = श्रोपधि-विशेष- ( मर्जाठ इति नभा. ) । व्यु. ? <मज्जु- इति श्रभा. MIV., श्रभा. [पक्षे] <  
मज्जिष्ट- इति । o) विप. । रक्षार्थे ऋण् प्र. ( पा ४, २, १ ) । p) विप. ( वासस्- ) । द्वस. ।

मठ- पाग २, ४, ३१<sup>a</sup>; ४, १, ४१;  
-ठम् वौध ३, १, १३; -ठे वैध  
३, ६, ६.

मठी- पा ४, १, ४१.

मठर<sup>b</sup>- पाउ ५, ३९; पाग २, २, ३८;  
४, १, १०४; १००; -राः<sup>c</sup> वौश्रौप्र  
४१: १.

माठर- पा ४, १, १०४; -रः वैताश्रौ  
१, ३; वृदे ८, ८५.

माठरायण- पा ४, १, १००.

मडर<sup>d</sup>- (>र-क[न्था>]न्थ-  
पा.) पाग ६, २, १२५.

मडार<sup>e</sup>- (>माडार्य- पा.) पाग ४,  
२, ८०.

मडुर<sup>f</sup>- (>र-क[न्था>]न्थ- पा.)  
पाग ६, २, १२५.

मड्डिका<sup>g</sup>- -काम् आपगृ ३, ११.

मड्डुक<sup>h</sup>- पाउभो २, २, २६.

माड्डुक<sup>i</sup>-, माड्डुकिक<sup>j</sup>- पा ४,  
४, ५६.

✓मण् पाधा. भ्वा. पर. शब्दे.

मणि<sup>k</sup>- पाउ ४, ११८; पाग ५,  
२, ९७; ४, ३; २९; ६, ३,  
१२०; -णयः आपश्रौ २०, १५,  
९; हिश्रौ १४, ३, २२; अप ६५,  
१, ८; वेज्यो ४; -ङ्गिः भागृ २,  
२१: ८; ९; कौसू ७६, ९; अप;  
-गिना कागृ २९, ११; वैगृ  
२, १५: ४; हिपि ५: १०;  
गोगृ; -गिम् वौश्रौ १७, ३९:  
४; ४१: ५; १९, १०: ३२१;  
हिश्रौ; -णीन् काश्रौ २०, ५,

१६; आपश्रौ १८, १७, १२;  
१९, १७; २०, १५, १०; वौश्रौ;  
-णीनाम् वौश्रौ २२, १९: ३;  
शंघ ३२५; अश्र १९, ३११;  
-णौ अश्र १९, ४६१.

मणि-क<sup>l</sup>- पा ५, ४, ३; २९; पावाग  
५, १, १२४<sup>l</sup>; -कः कप्र ३, ९,  
११; -कम् आगृ २, ९, ३;  
कौगृ ३, ३, १; पागृ ३, ५, २;  
गोगृ ३, ९, ६; -काः आश्रौ  
१२, ९, ११<sup>m</sup>; -कात् गोगृ १,  
१, २६; -कान् आगृ ४, ६, ४;  
-के कौगृ ३, १०, ११; शांगृ २,  
१४, १३; पागृ २, ९, ३; गोगृ ३,  
३, २०; ९, ७; अप ६७, २, १<sup>n</sup>.

माणिक्य- पावा ५, १, १२४.

मणिक-देश- शो द्रागृ १, ५,  
२४.

मणिक-प्रतिष्ठापन- नम् कौगृ  
३, ३, ८.

मणिका( क-अ)वधान- नम्  
पागृ ३, ५, १.

मणि-कनक-रजत-शङ्ख-शुक्त्यु(क्ति-  
उ)पल-प्रवाल- लानाम् सुधप  
८७: १२.

मणि-कार<sup>o</sup>- -रः वैध ३, ११, ९.

मणि-कुण्डल- लम् वौश्रौ ७,  
४: २४१; कौगृ ३, १, १३;  
शांगृ ३, १, १८.

मणिकुण्डल-बन्धन- ने भागृ  
२, २२: २.

मणि-धनुस्<sup>p</sup>- -तुः पागृ २, ७, १३;

वाध १२, ३३; वौध २, ३, ३३;  
गौध ९, २३.

मणि-धारण- -णे भागृ २, २१:  
१०.

मणि-पा( ल > )ली- ( >माणि  
पाल-, °लिक- पा. यक्र.) पाग  
४, ४, ४८; १, १४६.

मणि-पु(च्छ >)च्छी<sup>q</sup>- पावा ४,  
१, ५५.

मणि-प्रतिमोचन- -ने हिश्रौ १४,  
३, २३.

मणि-बन्ध<sup>r</sup>- न्धात् वाध ३, २६;  
वौध १, ४, १५१; ५, ९; गौध  
१, २८.

मणिबन्ध-जालु-तत्स(ः) वैगृ १,  
२: ४.

मणि-भद्र<sup>s</sup>- -द्रः आज्यो ५, १७.

मणिभद्रा(द्र-आ)दि- -दयः अप  
७१, १८, ३.

मणि-मय- -यम् विध २३, ३.

मणि-मुक्ता(क्ता-आ)दि- -वेध<sup>t</sup>-  
-धः वैध ३, ११: ९.

मणि-मुक्ता-प्रवाल-ताम्र-रजता(त-अ)  
यः-कांस्य- -स्यानाम् विध ५२,  
१०.

मणि-मुक्ताफल- -लेषु अप ७०,  
५, ३; -लैः अप २३, ६, ५.

मणि-रत्न- -तम् अप २०, ५, २.

मणि-रत्न-चर- -प्रतिरूप- -पः अप  
२०, ६, ७.

मणि-रत्न-विभूषित- -तम् अप ९,  
४, ४.

a) मव- इति पाका. । b) व्यप. । c) बहु. <माठर- । d) मडुर-, मन्दर- इति [पक्षे]  
भारडा. । e) मार्जार- इति पाका. । f) तु. पाका. । मडुमर- इति भारडा. प्रभृ. । g) =कन्या-। अर्थः  
व्यु. च? । वामना- वा मण्डक-त्वच्- वेति भाष्यम् । h) =वाद्य-विशेष- । i) =शिल्पि-विशेष- । j) वैप १ द्र. ।  
k) =उदक-माण्ड- । l) =मणि- । m) = ( पशुस्कन्धीय-मणिसदृश- ) मांस-खण्ड- ( तु. सा [ऐरा ७, १] ) ।  
n) अर्थः? । o) जाति-विशेष- । p) =इन्द्र-धनुस्- । q) वस. । r) =पाणि-भूल- । उप. अधिकरणे  
कृत. । s) =यक्ष-विशेष- । t) द्रस. >वस. >उस. उप. कर्तरि कृत. ।

मणि-ल, ला- पा ५, २, ९७; -लाः<sup>२</sup>  
 आपश्चौ १९, १६, ७; हिश्रौ २२,  
 १, ६.  
 मणि-व- पावा ५, २, १०९.  
 मणि-वत् वाध ३, ५१; याशि २,  
 ३०; नाशि २, ५, २.  
 मणि-श्रद्ध<sup>२</sup>- -द्धः विध १, ९.  
 मणि-संख्या- -ख्याभिः काश्रौ २०,  
 ७, १.  
 मणि-सुवर्ण- -र्णयोः विध ६६, ४.  
 मणि-सूत्र-वत् शैशि १८०; माशि  
 ९, ६; याशि २, ८; नाशि १, ६,  
 ११.  
 म(णि>)णी-व(त्>)ती- पा ६,  
 ३, १२०.  
 मणी(णी-इ)वा(व-आ)दि- -दीनाम्  
 पावा १, १, ११.  
 ✓मण्डू पाधा. भ्वा. आत्म. शोके.  
 ✓मण्डू पाधा. भ्वा. पर. भूपायाम्;  
 आत्म. विभाजने; चुरा. पर. भूपायां  
 ह्ये च > मण्डन- पा ३, २,  
 १५१.  
 मण्डयन्त- पाठ ३, १२८.  
 मण्डयित्तु- पाठभो २, १, ८३.  
 मण्ड<sup>१</sup>- पाठ १, ११४; पाग २, ४, ३१;  
 ५, २, ९७; ८, २, ९; -ण्डः या  
 ९, ५३<sup>६</sup>.  
 मण्ड-मत्- पा ८, २, ९.  
 १मण्ड-ल- पा ५, २, ९७.  
 मण्डक<sup>१</sup>- -काः वप्र ३, ९, १८; -कैः  
 अशां १३, २६.  
 ?मण्डचरवत्<sup>२</sup> वीश्रौ ६, ५ : १७.

मण्डप<sup>१</sup>- पाग २, ४, ३१; -पम् अप  
 १९<sup>२</sup>, १, ५; २१, ४, ४; ६८, ५,  
 २७; -पस्य अप २०, १, ३;  
 -पानाम् कागृ ७१, १४; अप  
 २५, २, ४.  
 मण्डप-मध्य- -ध्ये अप १९<sup>२</sup>, २, ३.  
 मण्डप-वेदि- -चाम् अप १०, १, ९.  
 मण्डर<sup>१</sup>- (>माण्डरिक- पा.) पाग  
 ५, ३, १०८.  
 २मण्डल, ला<sup>१</sup>- पाठभो २, ३, ९३;  
 पाग २, ४, ३१; ४, १, ४१;  
 ५, ३, १०८; -लम् काश्रौ १७,  
 १, ५; माश्रौ ६, १, ५, १; वाश्रौ;  
 आपशु ३, २-४; काशु १, २;  
 वौशु १ : ११; हिशु १, ४०;  
 ऋअ<sup>१</sup> २, २, १; ३, १; ३२; ४,  
 १; ६-७, १; ९, १; ३, ३३;  
 वृदे ५, १०३<sup>१</sup>; शुअ १, १<sup>३</sup>;  
 -लात् काश्रौ १६, ७, ३०;  
 -लानाम् अप ६४, ३, १०; ७,  
 ८; -लानि वैगृ २, १ : ६x४; अप;  
 ऋअ ३, ३८<sup>१</sup>; चव्यू १ : १०<sup>१</sup>;  
 -लाम्<sup>२</sup> माश्रौ ६, १, ७, १४;  
 २, १, १६; २, १२; वाश्रौ २, १,  
 ६, ३२; २, १, ११; २, ६;  
 -लायाम्<sup>०</sup> आपशु ७, ७; हिशु  
 २, ५५; -ले आगृ ३, ७, ४;  
 कौगृ २, ६, ३; आम्रिगृ;  
 ऋअ १, २, २<sup>१</sup>; ५, १<sup>१</sup>; वृदे  
 ३, २८<sup>१</sup>; ऋप्रा ४, ९४<sup>१</sup>;  
 -लेड-ले ऋअ २, ३, ५; -लेन  
 आम्रिगृ २, ६, ७ : १०; १२;

-लेषु अप ५२, ७, ३; विध ११,  
 ६; -लैः अप ६३, ३, १.  
 मण्डली- पा ४, १, ४१.  
 माण्डलिक- पा ५, ३, १०८;  
 -कः अप ३६, २६, ३<sup>०</sup>;  
 -कानाम् अप ७०<sup>३</sup>, १०, ४<sup>०</sup>.  
 मण्डल-कुष्ट-><sup>१</sup>ष्टिन्- -ष्टी शंघ  
 ३७७ : १७.  
 मण्डल-चक्र<sup>०</sup>- -क्रे हिश्रौ ७, ५, १.  
 मण्डल-चारिन्- -रिणः अप ७०<sup>३</sup>,  
 ६, ४.  
 मण्डल-दर्शन- -नात् आगृ ३, ७,  
 ६; कौगृ २, ६, ४; शागृ २, ९, ३-  
 मण्डल-द्वीप-संमित- -तम् गोपृ  
 ४, ७, १२.  
 मण्डल-प्रवेश- -शः शागृ ६, २, ५.  
 मण्डल-भाग- -गेषु वेज्यो २२.  
 मण्डल-संस्थि (त>)ता- -ता अप  
 ५८<sup>३</sup>, ४, ७; -ताः अप ५८<sup>२</sup>, २, ६.  
 मण्डल-सप्तक- -कम् विध ११, २<sup>०</sup>.  
 मण्डल-समुत्पत्तित- -ताः अप ७०<sup>३</sup>,  
 ११, २२.  
 मण्डला(ल-आ)कार<sup>०</sup>- -रम् वीश्रौ  
 २०, १३ : १९.  
 मण्डला(ल-आ)कृति<sup>०</sup>- -ति अप  
 १३, १, ९; शंघ १४६; -तिम्  
 अप १२, १, ३.  
 मण्डला(ल-आ)गार- -रे आम्रिगृ २,  
 १, १ : ८<sup>१</sup>; २ : ९<sup>१</sup>; हिगृ २, १,  
 ३; २, २.  
 मण्डलागार-च्छाया- -यायाम्  
 आगृ १, १३, ५.

a) मल्ल- = मलि-हा- (तु. वैप १)। b) वस.। c) या ९, ५ परामृष्टः द्र.। d) यप्रा.। = पिच्छ-  
 मस्तु- (तु. पाउधे १, १०७) प्रमृ.। व्यु. ? < ✓मद् वा < ✓मुद् वेति या., < ✓मम् इति पाठ.। e) = जल-  
 इति स्त्रन्द.। f) = अरूप-। g) = पुरोडाश- इति Bolling.। h) = लाङ्गलपाशवत् इति भाष्यम् (तु. सूची)।  
 i) नाप.। j) = जीव-विशेष- इति पागम.। k) वैप १ द्र.। l) वैप १, २४०६ h द्र.। m) = सूर्य-  
 मण्डल-। n) = नरदलेष्टका-। o) = परि-मण्डला- (गार्हपत्य-चित्ति-).। p) = प्रान्ताधिप-। रक्षतीत्यर्थे टक् प्र.  
 (पा ४, ४, ३३)। q) लं स० इति जीसं.। r) कारे इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. हिगृ.)।



मण्डला(ल-अ)ग्र- -ग्रम् अप २७,  
२,४.  
मण्डला(ल-आ)दि- -द्विषु ऋअ  
१,१२,१२.  
मण्डला(ल-अ)भ्यन्तर-स्थ- -स्थाः  
अप ६४,७,३.  
मण्डला(ल-अ)भ्याश-सेविन्-  
-विन्. अप ५२,८,२.  
मण्डलिन्<sup>१</sup>- -ली शंघ ३७६;३७७:  
१.  
मण्डली<sup>२</sup> > ंली-कृत- -तः  
अप ६३, १, ५; -तान् वौश्रौ  
२६ २४ : १३.  
मण्डले(ला-इ)ष्टका<sup>३</sup>- -काः वौश्रौ  
१०, ५ : १३; ६ : ७; १२××;  
वैश्रौ १८, १ : ७६; १९, ५ : १६;  
हिश्रौ ११, ५, १८; -काम्  
आपश्रौ १६, २३, ९; १७, १,  
१५; ४, २; ७; वौश्रौ १०, ३१ :  
१३; ३९ : २२××; वैश्रौ १८,  
१७ : २७; ४०××; हिश्रौ ११,  
७, ३१; १२, १, ११; ३७.  
मण्डवित्<sup>४</sup>- -वित् वौश्रौ प्र ३ : ८.  
मण्डाकक<sup>५</sup>- -कः<sup>६</sup> भाग २, ७ : २२;  
हिय २, ७, २३.  
मण्डु<sup>७</sup>- पाठभो २, १, ५१; पाग ४, १,  
१८; १०५; -ण्डुम् शांठ ६,  
१, १.  
माण्डव<sup>८</sup>- -वम् द्राश्रौ ९, ३,  
१३; लाश्रौ ३, ६, ३३.  
माण्डव्य- पा ४, १, १०५; -व्यः  
वाधूश्रौ ४, १०८ : १६; -व्यम्  
शांठ ६, १, १; -व्याः वौश्रौ प्र

३ : २.  
माण्डव्यायन- -नः अप १,  
३, १.  
माण्डव्यायनी- पा ४,  
१, १८.  
मण्डु-माण्डव्य- -व्यौ अप ४३,  
४, २११.  
श्मण्डुक<sup>१</sup>- पाठ ४, ४२; -कः निस्  
३, ११ : २; आग्नि २, ५, २ :  
४; वौश्रौ ३, ६, १; जैगृ; -कम्  
आपश्रौ १७, १२, ७; वौश्रौ १०,  
४७ : १५××; वाश्रौ; -कस्य  
आपश्रौ १७, १२, ८; माश्रौ ६,  
२, ४, १२, वैश्रौ १९, ६ : ५७;  
हिश्रौ १२, ४, २; -काः अप ६४,  
८, ८<sup>२</sup>; वृदे १, १०९; निघ ५,  
३१; या ९, ५१××; -कान्  
आपश्रौ २०, २१, ९१; वौश्रौ;  
ऋअ २, ७, १०३; वृदे ६,  
२७; अथ ४, १५; या ९, ६;  
-केन माश्रौ ६, २, ४, ११; -कौ  
कौस् ९६, १.  
१मण्डुकी- -कि या ९,  
७१.  
मण्डुकिका- -का सु ९,  
४.  
१माण्डुक- -कान् वाश्रौ २,  
२, ३, १८<sup>२</sup>६.  
मण्डुक-नकुल-काक-विस्व-दहर-  
सूपक-श्व-हिंसा<sup>१</sup>- -सासु गौघ  
२२, २१.  
मण्डुक-सर्प-सूपिक-माजारा(र-अ)  
न्तरागमन- -ने वौश्रौ ४, ९, ९.

मण्डुका(क-अ)वका-वेतस- -सैः  
वैताश्रौ २९, १३.  
मण्डुका(क-अ)वका-वेतसशाखा-  
-खाः काश्रौ १८, २, १०.  
२मण्डुक<sup>२</sup>- -कस्य माशि २, ३; -केन  
माशि १६, १६.  
२माण्डुक- पा ४, १, ११९; -काः  
वौश्रौ प्र ३ : १.  
माण्डुकायन<sup>३</sup>- -नाः चव्यू १ : ८.  
माण्डुकायनी- पा ४, १,  
१९.  
माण्डुकि- पा ४, १, ११९.  
माण्डुकेय- पा ४, १, ११९; -यः  
कौश्र १, ५, २५; १६, १६××;  
शांठ १, ८, १३××; -यम्  
शांठ ४, १०, ३; अप ४३,  
४, ४६<sup>१</sup>; -यस्य ऋप्रा ३, १४;  
-याः वौश्रौ प्र ३ : ३.  
१मण्डुकी<sup>४</sup>- -क्या<sup>५</sup> कौश्र ५, ५, ५.  
१मण्डुकी<sup>६</sup>- -क्यौ आपश्रौ १६,  
१८, ४; वैश्रौ १८, १५ : १२<sup>१</sup>;  
हिश्रौ ११, ६, २६.  
मण्डुर- पाठभो ३, २, ५७.  
मत् अस्मद्- द्र.  
श्मत- (>मत-क- पा.) पाग ४,  
२, ८०.  
श्मत- > मत् द्र.  
श्मतङ्ग- -ङ्गाः अप १, ८, २.  
श्मतङ्ग<sup>७</sup>- पाठभो २, २, ६२.  
मतङ्ग-वापी<sup>८</sup>- -प्याम् विघ ८५,  
३८.  
मतङ्गा(ङ्ग-अ)नुचर<sup>९</sup>- -रौ सु १४, १.  
मतस्न<sup>१०</sup>- -स्नम् आग्नि ३, ५, ७ :

a) = मण्डलकुष्ठिन्- । b) वैप १ द्र. । c) व्यप. । d) सपा. मण्डाककः <> मन्त्याककः इति  
पामे. । e) = साम-विशेष- । तेनदृष्टीयः प्र. । f) वैप १, २४०६ j द्र. । g) ण्डुके इति पाठः ? यनि. शोधः  
(तु. सपा. माश्रौ ६, २, ४, १२) । h) विस्व- = कुक्लास-, दहर- = वालमूपिका- । i) = ऋग्वेद-शाखान्,  
तदथ्येत्- वा । j) ण्डु° इति पाठः ? यनि. शोधः । k) वैप १, २४०७ a, b द्र. । l) ण्डु° इति पाठः ? यनि.  
शोधः (तु. आपश्रौ.) । m) = मुनि-विशेष- । n) = [गयास्थं-] तीर्थ-विशेष- । o) पूष. अर्थः ? ।

२०?; हिपि ६:११; -स्नाभ्याम्  
 आपमं १,१७, ३१; -स्ने हिथ्रौ  
 ४,४,५२<sup>b</sup>; ५, ११; आत्रिगृ ३,  
 २,५:९<sup>c</sup>; ५,६:१२; भागृ २,  
 १६:१०<sup>c</sup>; हिगृ २, १५, ५<sup>c</sup>;  
 -स्तौ वौश्रौ ४,८:४<sup>b</sup>; ९:११;  
 २५,३२:९; वौपि १,४:२६<sup>c</sup>;  
 ६:१४; हिपि ५:६.

मतस्नु<sup>d</sup>- स्नुम् वौश्रौ २, १०:१८;  
 ११:१४; -स्नु वौश्रौ २, ९:  
 ३३<sup>c</sup>; वैश्रौ १०,१७:६<sup>b</sup>; १९:५.

मति- ✓मन् द्र.

†मत्तुथा:° अप ४८, ८५; निघ ३,  
 १५.

मत्कुण<sup>f</sup>- -ण: वौश्रौ ३७,९:२.

मत्त- ✓मद् द्र.

मत्तस्(ः) प्रभृ. अस्मद्- द्र.

‡मत्थै:° कौस् ११७,२.

मत्वा ✓मन् द्र.

मत्सखि-, मत्सख्य- अस्मद्- द्र.

मत्सर- ✓मद् द्र.

१मत्स्य<sup>b</sup>- पाठ ४,२; १०४; पा, पाग ५,  
 ३,१००; पाग ४,१,४१; -त्स्यः  
 सु १७, २; शंघ ३७७:२०;  
 -त्स्यम् वाधूश्रौ ४, १९:३८;  
 वाश्रौ २,१,६,३६; वैध २, १५,  
 ५<sup>1</sup>; या १०,१२<sup>1</sup>; -त्स्यस्य वौगृ  
 २,११,५४; आपध २, १७, २;  
 हिघ २, ५, २९; -त्स्याः आश्रौ  
 १०, ७, ८<sup>1</sup>; वौघ १, ५, १३४;  
 गौघ १७, ३४; ऋअ २, ८, ६७;  
 या ६, २७<sup>1</sup>; नाशि २, ५, १०;

-त्स्यान् शश्रौ १६, २, २३<sup>1</sup>;  
 वौश्रौ; -त्स्यानाम् अप ६५, २,  
 ६; वाध १४, ४१; आपध १,  
 १७,३८; हिघ; या ६, २७<sup>1</sup>;  
 -त्स्येषु शंघ २२४; -त्स्यैः पागृ  
 १, १९, ९; -त्स्यौ वाधूश्रौ ४,  
 १९:२९; ३७.

मत्सी- पा ४, १,४१; पावा  
 ४,१,६३, ६,४,१६३.

मात्स्य<sup>k</sup>- -त्स्यम् कौगृ १,१९,  
 ४; शांगृ १,२७,४.

मात्सी- -त्स्याम् चाअ १:८.

मात्स्यिक- पा ४,४, ३५.

मत्स्य-गन्ध<sup>l</sup>- -न्धाः वौश्रौप्र २:२.

मात्स्यगन्ध- -न्धानाम् चाअ २:  
 ३; १६:९.

मत्स्य-घातिन्- -ती विध ५, ५३;  
 वैध ३, १४, १२.

मत्स्य-वन्ध- -न्धेन अप १, २९, ४.

मत्स्य-वन्धिन्- -न्धी वैध ३, १४,  
 ११.

मत्स्य-वन्धु<sup>m</sup>- -न्धुः वैध ३, १४,  
 ११.

मत्स्य-मांस- -स्तेन विघ ८०, २.

मत्स्य-मांस-दधि-क्षीर-रुधिरा(र-  
 आ) गम- -मे अप ६८, २, १२.

मत्स्य-मुद्गर<sup>n</sup>- -रौ अप ३९, १,  
 १०.

मत्स्य-रूप-> °पिन्- -पी अप  
 ६१, १, १७.

मत्स्य-वध- -धे शंघ ३७७:२३.

मत्स्य-विट्<sup>o</sup>- -विट्: शश्रौ १६,

२,२३<sup>p</sup>.

मत्स्य-सर्प-द्विजाति- -तीनाम् अप  
 ७१, १, ५.

मत्स्या(त्स्य-अ)द्- -दान् शंघ ४२६.

मत्स्या(त्स्य-आ)दि- -दीन् अप ३९,  
 १, ९; वैध ३, ५, ७.

मत्स्याद्य(दि-अ)र्थ- -र्थम् पावा  
 १, १, ६८.

२मत्स्य<sup>q</sup>- -त्स्यः आश्रौ १०, ७, ८;  
 शाश्रौ १६, २, २२; ऋअ २, ८,  
 ६७; वृदे ५, १५२; -त्स्यात्  
 ऋअ २, ८, १.

३मत्स्य<sup>r</sup>- -त्स्याः अप १, ७, २<sup>2</sup>; ५६,  
 १, ५; -त्स्यान् अप ५०, २, ५;  
 ५६, १, ८.

मत्स्यक्राथ<sup>p</sup>- -थाः वौश्रौप्र १७:१७.

‡मत्स्यति अप ४८, १३<sup>1</sup>.

✓मथ्, न्थ् पाधा. भ्वा. पर. हिंसासं-  
 क्लेशानयोः, भ्वा. कथा. पर.

विलोडने; मन्यते वौश्रौ १६, १:६;

मन्यति काश्रौ ५, २, २; ६,  
 ३, २२; १२, १, १५; आपश्रौ  
 ५, १०, ७x४; वौश्रौ; मन्यन्ते

काश्रौ १२, २, ४; मन्यन्ति  
 वाधूश्रौ ४, ५:९; वाश्रौ ३, २,  
 १, ५१; कप्र १, ७, १२; ८,  
 ४; मन्यामि कौस् ७०, १<sup>1</sup>;

†मन्यत कौस् १६, ९; अत्र ८,  
 ८; अपं ४:२९; †मथ्यऽमथ अप  
 ३५, १, २; ३६, ९, ३; †मन्यत,  
 >ता वौश्रौ २, १६:३३; वृदे;

अमन्यत् आपमं १, ११, ८<sup>1</sup>;

a) °स्नाम् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. हिपि.)। b) सपा. °स्ने<> °स्तौ<> °स्नु<>

आपश्रौ ७, २२, ६ वृक्ष्यौ इति पाभे.। c) सपा. °स्ने<> °स्तौ <> °स्नु इति पाभे.। d) =मतस्न-।

e) वैप १ द्र.। f) नाप.। g) मत्थैः इति संस्कृत्तुः टि.। h) वैप १ निर्दिष्टानां समावेशः द्र.।

i) =मत्स्यमांसम् इति C.। j) पाभे. वैप २, ३३, माश १३, ४, ३, १२ टि. द्र.। k) अपत्ये दृढमथं च अण्

प्र.। l) व्यप.। वस.। m) =मत्स्य-वन्धिन्-। n) उप. =मीन-विशेष-। o) उप. <✓विट् [ज्ञाने]।

p) पाभे. वैप २, ३३. मत्स्यहनः माश १३, ४, ३, १२ टि. द्र.। q) व्यप.। r) =देश-विशेष- वा तद्वातिन्- वा।

†अमन्याम कौट ५, ५, ५<sup>१३</sup>;  
आमिण् ३, ६, ३: १०; वौषि;  
मन्थेत् आपश्रौ ६, २८, १३××;  
वौश्रौ; मन्थेयुः आश्रौ ३, १२,  
२१; भाश्रौ ६, ८, ८; हिश्रौ १५,  
६, ८; अप्राय २, ४.  
मध्नन्ति वाधुश्रौ ४, २८ : ७.  
†मथोत् शांश्रौ १४, ५७, १३;  
ऋञ्ज २, १, १४८.  
मथ्यते वाश्रौ ३, ३, १, ४५;  
‡मथ्यति<sup>१</sup> वृदे ३, ६२.  
मन्थयेत् आश्रौ ३, १०, ८; १२,  
२२; लाश्रौ ८, ५, ३; अप २२,  
५, ५.

मथ्य- पा ३, १, १४०.

√मथाय, मथायति अप्रा ३, ४,  
१†.

मथित,ता- -तः अप २२, ६, १;  
-तम् शांश्रौ १४, ५३, ६†;  
वौश्रौ; -ते कौसू ६८, ३७; ७३,  
४†; अप्राय २, ४; अप; -तेन  
कौसू ३९, १३.

मथित्वा आश्रौ २, २, १××; शांश्रौ;  
मथित्वाऽमथित्वा वौश्रौ १६, १ : ७.

मथिज्यत्- -ज्यन् भाश्रौ ६, ६, ११;  
वाश्रौ १, ४, २, १२.

मथ्य- -थ्यः माश्रौ ३, ८, ८; वाश्रौ  
१, ५, ४, ४३; अप २२, ६, २;  
-थ्यम् वाश्रौ १, ४, ३, ५.

मथ्यमान- -नः काश्रौ २५, ४, १;  
आपश्रौ ७, १३, ४; ९, ३, ३†;  
वौश्रौ; या ८, २; -नम् वैताश्रौ  
५, १४; २४, १८; अप १३, १,  
४; -नाय शांश्रौ ३, १३, १६;

काश्रौ ५, २, १; आपश्रौ; -ने  
आपश्रौ ५, १०, ११; भाश्रौ.

मन्थ<sup>२</sup>- पा ७, २, १८; पाग २, १,  
४०; ४, २, ८०<sup>३</sup>; ६, १, १५६<sup>०</sup>;  
-न्थः काश्रौ ५, ८, १२; १८;  
माश्रौ १, ७, ६, ३०; वाधुश्रौ; हिपि  
१५ : १६; कौसू ९२, ४; -न्थम्  
काश्रौ ५, ९, १०; आपश्रौ;  
-न्थस्य काश्रौ ५, ८, १९; आपश्रौ;  
-न्थात् भाश्रौ ८, १८, १९; वैश्रौ  
९, ७ : १२; ८ : ५; ९; ९; ६; हिश्रौ  
५, ४, ६७; ७१; -न्थान् आपश्रौ  
१९, १३, १२; २२, २६, १; १०;  
वौश्रौ २, ७ : २४; १९, ५ :  
२८; २१, ६ : २१; हिश्रौ; -न्थाम्  
शांश्रौ १२, १७, १३†<sup>४</sup>; -न्थाय  
माश्रौ १, ७, ६, ६; ९; -न्थे  
आपश्रौ ८, १५, २३; माश्रौ १,  
७, ६, ४०; कौसू ११, १८; -न्थेन  
माश्रौ १, ७, ६, ३५; काग ६५,  
७; माग २, १, ६; कौसू ८०, २५.  
मान्थ्य- पा ४, २, ८०.

मन्थ-पुरोडाश-धाना- -नानाम्  
काश्रौ ५, ९, ७.

मन्थ-प्रतिरूप- -पम् कौसू २३,  
७.

मन्थ-मूल- -ले वैश्रौ १, १: २७.

मन्थ-शिरस्- -रसि कौसू ३८, ९.

मन्थ-श्री- -श्रीः अप्राय ३, ३†.

मन्था( न्य-ञ्च)चमनो( न-उ )  
पस्थान<sup>५</sup>- -नम् कौसू २८, १६.

मन्था( न्य-ञ्च)दि- -दीनाम्  
वाश्रौ १, ७, ४, ४७.

मन्था( न्य-ञ्च)न्त<sup>६</sup>- -न्तानि

कौसू १२, ४; १८, २६.

मन्था( न्य-ञ्च)भिधान- -ने पाव  
७, २, १८.

मन्था( न्य-ञ्च)र्थ- -र्थम् हिश्रौ  
५, ४, १५.

मन्थिन्<sup>१</sup>- -न्थिन् वौश्रौ ७,  
१४ : ०; वैश्रौ; -न्थिनः काश्रौ  
९, १०, ११†; १५, ७, १४;  
आपश्रौ; -न्थिनम् काश्रौ ९, ६,  
१३†; आपश्रौ; -न्थिना काश्रौ  
९, १०, २; -न्थिने माश्रौ २, २,  
५, २९; -न्थी आपश्रौ १२, २२,  
८; वौश्रौ ७, १३ : २३; वैश्रौ.

मन्थि-ग्रह- -हम् वैश्रौ १५,  
२७ : २३.

†मन्थि-प- -पाः आपश्रौ  
१२, २२, १; वौश्रौ.

मन्थि-पात्र- -त्रम् आपश्रौ  
१२, २३, १२; काठश्रौ ११६;  
वौश्रौ ७, २ : १२<sup>२</sup>; ६ : ४९; १४ :  
२४; ८, ४ : १३; वैश्रौ १५, २: ७.

मन्थि( न्यीत्काश्रौ.१)न्त-  
-न्तः काश्रौ १०, २, ३; आपश्रौ  
१२, २३, ४; १३, ४, १४†; वौश्रौ  
७, १४ : १०†; ८, ४ : ६†; २१,  
२० : ३; माश्रौ.

†मन्थि-शोचिस्<sup>१</sup>- -चिपा  
आपश्रौ १२, २२, ८; वौश्रौ ७,  
१३ : २३; वैश्रौ १५, २८ : १;  
हिश्रौ ८, ७, १४; १८.

मन्थि-संज्ञाव- -न्थ्य वौश्रौ  
२१, २० : ५; -न्थात् वौश्रौ २५,  
१८ : १०.

a) मन्थाम इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सपा. तैआ ६, ४, १)। b) कर्मणि रूपम् (तु. या ८, २ मथ्य-  
मानः इति)। c) नाप. (पेय-द्रव्य-, मन्थन-दण्ड- [आग.])। कर्मणि करणे च कृत्। d) अर्थः?। पन्थ-  
इति [पक्षे] भारडा.। e) पृ १२७९ ङ द्र.। f) वैप १, २४०८ f द्र.। g) पस. > मलो. कस. (वैतु. भाष्यम्  
द्रस. इति?)। h) वस.। i) वैप १ द्र.। j) तु. चौसं.।

मन्यो(न्य-ओ)दन- नम् वैश्री  
१६, ६ : ५.

मन्यो(न्य-ओ)दन- नौ कौसू  
७, ७.

मन्यो ( न्य-ओ )दन-तिल-माप-  
-पा: काश्री १०, २, ११; हिश्री  
१०, ४, ३५.

मन्यत्- न्यन्तौ कौसू ६०, १९.

मन्यन- नम् आश्री ३, १४, १७;

शांश्री: -नस्य वौश्री २७, ७ :  
७; १० : ५; -नात् भाश्री ५,

४, १०; -ने कप्र १, ७, १२;

-नेन वौश्री २७, ७ : १; वैश्री  
२०, ३१ : ६; अप २२, ९, १.

मन्यन-कल्प- -ल्प: हिश्री ३, ६,  
२८.

मन्यन-यन्त्रक- -कम् कप्र १,  
७, ५.

मन्यन-शेष- -पम् वौश्री २७,  
८ : ६.

मन्यन-सामर्थ्य- -र्थम् वौश्री  
२७, ८ : ६.

मन्यव्य<sup>a</sup>- -व्य: अप २२, ३, ५;  
८, ४.

मन्यान्<sup>b</sup>- > ण-मञ्जन- -ने काघ  
२७६ : ११.

मन्यितव्य- -व्य: आपश्री ९, ९,  
११; भाश्री.

मन्यिष्यत्- -प्यत्सु द्राश्री १२, २,  
१; लाश्री ४, १०, १; -प्यन्  
माश्री १, ६, ३, ५; -प्यन्त: द्राश्री

१२, १, २२; लाश्री ४, ९, १६.

मन्यय- -न्यय: आम्रिगृ १, ६, ३:

५४; २, ७, २ : ३; आपगृ ५,

१५; भागृ १, १८ : १५; हिगृ

१, २२, ४.

माथ- पा ३, १, १४०.

मथ- √मथ् द्र.

मथ.न्य<sup>c</sup>।क<sup>d</sup>- पा, पाग २, ४, ६३.

मथा<sup>e</sup>- लाश्री ७, १०, १०; ११.

श्मथित- √मथ् द्र.

श्मथित<sup>f</sup>- -त: ऋअ २, १०, १९.

मथित्त्वा √मथ् द्र.

मथुरा<sup>g</sup>- पाठ १, ३८<sup>h</sup>; पाग ४, २,

८२.

माथुर-> ऋवत् मीसू १, ३,

२१.

मथुरा-पुरङ्ग-देश- -शान् अप ५६,

१, ८.

म-थो(ध-उ)दय- म-द्र.

मथय-, मथ्यमान- √मथ् द्र.

√मद्, न्द् (वधा.)<sup>m</sup> पाधा. भ्वा.

पर. हर्षेग्लेपनयोः; आत्म. स्तुति-

मोदमदस्वप्नकान्तिगतितुः; दिवा.

पर. हर्षे; चुरा. आत्म. तृत्तियोगे,

मदति निघ ३, १४<sup>n</sup>; √मदन्ति

आश्री ४, ७, ४; शांश्री; काश्री

८, २, १०<sup>l</sup>; ११<sup>l</sup>; हिश्री

१५, ५, १<sup>k</sup>; आपमं २,

१९, ७<sup>l</sup>; आम्रिगृ ३, १,

२ : २<sup>l</sup>; मदय > या ऋप्रा

७, ३३; √मदन्ताम्<sup>m</sup> आपश्री

१९, ३, ७; हिश्री १३, ८, ३३;

√मदन्तु आश्री ३, ९, ३<sup>n</sup>;

वौश्री २, १० : ३३; ३५; ३७;

हिगृ २, ११, १<sup>l</sup>; √मदध्वम् जैगृ.

२, १ : ६××; अमदत् या १३,

४<sup>l</sup>क<sup>l</sup>; √मदत्<sup>o</sup> शांश्री १२, १३,

२; वैताश्री ३२, १७; √अमदन्<sup>p</sup>

आश्री ५, १८, २; शांश्री ८,

३, ४; मदेमहि निघ ३, १९<sup>q</sup>;

√मदेम आपश्री ९, ८, ६<sup>r</sup>××;

वौश्री १३, ४३ : १०<sup>r</sup>××;

माश्री; हिश्री १२, ४, ४<sup>r</sup>; १५,

२, ३५<sup>r</sup>; अप्राय १, ३<sup>r</sup>.

√मस्ति आश्री ६, ४, १०; ८, ५,

१२; शांश्री; √मस्त्व, >स्वा

आश्री ६, २, ९; ३, १××; शांश्री.

ममत्तु वौश्री १३, २० : ६<sup>r</sup>;

ममद्धि आश्री ६, ३, १६<sup>r</sup>;

√ममत्तन आपश्री १३, ३, ४;

माश्री ४, ५, ४; वैश्री.

√ममाद् वौश्री १३, ७ : ४; आपमं

२, ११, ८; √मस्त्व आश्री ६,

२, ११; शांश्री; मस्त्वाम् शांश्री

८, १९, १<sup>q</sup>क<sup>l</sup>; √मस्त्वन् शांश्री

८, २०-२१; १<sup>r</sup>; २३, १<sup>r</sup>;

√ममस्त्वत आश्री १, ८, ७; शांश्री

१, १३, ३; आपश्री; हिश्री २१,

२, ६२<sup>q</sup>.

म(इमा)यन्ते अप ६७, ४, ४;

माद्यन्ते अप ७०<sup>r</sup>, ११, ५; या

६, २७; अमाद्यत् शांश्री १६, ९,

a) मन्यितव्य- > नैप्र. यनि. । b) = मन्य-दण्ड- । c) पाका., [पक्षे] भाण्डा. पासि. पाठः ।

d) व्यप. । e) = निघन-विशेष-(तु. MW.) । f) = नगरी-विशेष- । g) < √मथ । h) या २, ५, ४, ८, २४;

९, ५; १७; ११, ७ पा ३, ३, ६७; ६, १, ९२; ७, ३, ७४ परामृष्टः द्र. । i) धा. अर्चायां वृत्तिः । j) धा. उष्णी-

माये वृत्तिः । k) सपा. ऋ १, ८९, ९ भुवन्ति इति पाभे. । l) सपा. मदन्ति < > मदन्तु इति पाभे. । m) पाभे.

वैप १, १४९५ f द्र. । n) पाभे. वैप १ मुदन्तु मा २१, ४२ टि. द्र. । o) प्रतिगरदिशा = अमदत्

(ऋ १०, ८६, १) । p) पाभे. वैप १, २४१० f द्र. । q) सपा. अप ४८, १२ वनेमहि इति पाभे. । r) पाभे.

वैप १, २४०९ g द्र. । s) ०ते इति पाठः? यनि. शोधः (तु. तैत्रा ३, ५, ९, १ आश्री. प्रच.) ।

१००; या १३, ४.  
 मादयन्ति या ९, ८; मादयसे  
 वृदे ४, ७८; ऋमादयन्ताम् आश्रौ  
 ५, १७, ३; आपश्रौ १, ८, ७, ७,  
 ५, १<sup>०</sup>; वौश्रौ ३, १८: २८<sup>०</sup> x x;  
 माश्रौ ७, ४, १<sup>०</sup>; वाश्रौ १, ३,  
 ५, ११<sup>०</sup>; २, २, २, १२<sup>०</sup>; ७;  
 हिश्रौ ४, १, ६२<sup>०</sup> x x; द्राश्रौ  
 १२, ४, १<sup>०</sup>; आमिगृ ३, ५,  
 ७: ६<sup>०</sup>; वौपि १, ६: २<sup>०</sup>;  
 भाग्य; लाश्रौ ४, १२, १<sup>०</sup>; वैताश्रौ  
 ४, ३<sup>०</sup>; ऋमादयस्व शाश्रौ १,  
 ८, १४; वौश्रौ; ऋमादयध्वम्  
 आश्रौ<sup>०</sup> २, ७, १ x x; शाश्रौ<sup>०</sup>  
 ४, ११ x x; आपश्रौ; वौश्रौ  
 १, १९: ३८<sup>०</sup>; माश्रौ १, ७, ६,  
 ४८<sup>०</sup>; २, ५, १, ३५<sup>०</sup>; ६, २,  
 ३, ८<sup>०</sup>; वाश्रौ १, २, ३, २६<sup>०</sup>;  
 ७, ४, ५०<sup>०</sup>; जैश्रौ १८: १६<sup>०</sup>;  
 द्राश्रौ ६, २, ४<sup>०</sup>; लाश्रौ २,  
 १०, ४<sup>०</sup>; कागृ ३९: १५<sup>०</sup>;  
 गोश्रौ ४, ३, ११<sup>०</sup>; गौपि २, ३,  
 ७<sup>०</sup>; जैगृ २, २: ११<sup>०</sup>; द्रागृ ३,  
 ५, १७<sup>०</sup>; कौस् ८८, १८<sup>०</sup>; विध  
 ७३, २२<sup>०</sup>.  
 ऋमीमदन्त आश्रौ २, ७, २;  
 शाश्रौ; अमीमदन् माश्रौ २, ३,  
 ७, १<sup>०</sup>; अमीमदम् वौश्रौ १४,  
 ८: २८<sup>०</sup>.  
 ऋमन्दते निध १, १६<sup>०</sup>; ३, १४<sup>०</sup>;  
 मन्दति अप ४८, ५०<sup>०</sup>;

ऋमन्दतु आश्रौ ५, १५, २३; ७,  
 ११, २७; शाश्रौ; मन्दन्ताम्  
 चाश्र ३०: १९<sup>०</sup>; ऋमन्दस्व,  
 >स्वा वौश्रौ ८, ९: २१<sup>०</sup>;  
 ऋश्र २, २, ३७; वृदे; ऋमन्दध्वम्<sup>०</sup>  
 आपश्रौ १, ९, ९; ८, १६, ८;  
 वौश्रौ २, १०: २९; ३, १०:  
 २३; ५, १५: ९; ८, १२: ४४;  
 १७: ११; माश्रौ १, ९, २; ८,  
 २०, १; वैश्रौ ९, ९: १२; हिश्रौ  
 २, ७, ३; ५, ४, ७७; भागृ २,  
 १३: ६; अमन्दन् चाश्र ४१: ७.  
 ऋमन्दिपीमहि वौश्रौ ५, १५:  
 १०<sup>०</sup>; ६, ७: १<sup>०</sup>; माश्रौ ८,  
 २०, १<sup>०</sup>; १०, ११, १०<sup>०</sup>; द्राश्रौ  
 १३, २, ७<sup>०</sup>; लाश्रौ ५, २, १०<sup>०</sup>.  
 ऋमन्दय > या ऋप्रा ८, ३३.

मत्त, चा- पा ८, २, ५७; -त्त: आपघ  
 १, १९, १; हिध १, ५, १०३; वृदे  
 ७, २३; या २, ५; अप्रा २, ३,  
 १६<sup>०</sup>; -त्तम् अप ६८, २, २८;  
 विध ७१, ३१; -त्ताम् वीध १,  
 ११, ९; -त्तायाम् अप ७२, २,  
 ७; -त्ते विध ९९, ११.

मत्त-कुद्धा(द्ध-आ)तुर- राणाम्  
 विध ५, १९.

मत्त-द्विप-चतुष्क- -ष्कम् अप  
 ५, ४, ५.

मत्त-मातङ्ग-ङ्गः शैशि १०९.

मत्तो(त्त-उ)न्मत्त-व्यङ्ग-ङ्गात्  
 विध ६३, ३४.

मत्तवत्- पा ८, २, ५७.  
 मत्सर<sup>०</sup>- पाठ ३, ७३; -ऋः शाश्रौ  
 १८, १८, ४; आपश्रौ २०, १३,  
 ४; वाश्रौ; या २, ५<sup>०</sup> ङ्ङ; -स्म  
 शाश्रौ १७, १७, ३<sup>०</sup>; वाधूश्रौ  
 ४, ७९: ५<sup>०</sup>; या २, ५<sup>०</sup>.  
 मत्सरिन्- -री शंघ ३७७: १७.  
 मद्<sup>०</sup>- मद्: वौश्रौ ३, ९: २<sup>०</sup>.  
 मद्-वत्<sup>०</sup>- वात् शाश्रौ ७, १९,  
 १६; ८, ३, १२; ६, १५; माश्रौ  
 २, ५, १, ४७.

!मद्वती- -त्य: निसू २,  
 ११: २४.

ऋमदि(घ >) घा- -घ्याल्लसू १,  
 ३: २१; ५: १७; या ११, ३.

मद्<sup>०</sup>- पाग ३, १, १३४<sup>०</sup>; ४, २,  
 ८०<sup>०</sup>; -ऋद: आश्रौ ८, ६, १३;  
 शाश्रौ; -ऋदम् आश्रौ ७, ८, २;  
 शाश्रौ; -ऋदस्य आश्रौ ८, ४, ३;  
 शाश्रौ १२, २६, ११; -ऋदा:  
 आश्रौ ६, ३, १; शाश्रौ ९, ५, २;  
 या ४, १५; -दानाम् आपश्रौ  
 १७, ७, ८<sup>०</sup>; -ऋदानाम् आश्रौ  
 ६, १, २; शाश्रौ ९, ४, ७;  
 -ऋदाय आश्रौ ६, ३, १<sup>०</sup> x x;  
 शाश्रौ; या ४, ८<sup>०</sup>; -ऋदास:  
 आश्रौ ७, १२, १६; ८, ७, ११;  
 -ऋदे आश्रौ ६, ३, १; ४,  
 १० x x; ७, ४, ४<sup>०</sup>; ९, ५, १६<sup>०</sup>;  
 शाश्रौ ८, २५, १<sup>०</sup> x x; १८,  
 ६, ४<sup>०</sup>; आपश्रौ १२, ११, ९;

- a) पाभे. वैप १, २४११ c द्र. । b) पाभे. वैप १, २४११ b द्र. । c) प्यताम् इति पाठः? यनि.  
 शोधः । d) पाभे. वैप १, २४११ a द्र. । e) पाभे. वैप १, २४११ e द्र. । f) सपा. शौ ७, ६०, २  
 मादयेयाम् इति पाभे. । g) घा. ज्वलने वृत्तिः । h) घा. अर्चायां वृत्तिः । i) पाभे. वैप १, १४९५ f द्र. ।  
 j) पाभे. वैप १, २४१० d द्र. । k) पाभे. वैप १, २४१२ e द्र. । l) पाभे. वैप १, २४१२ f द्र. । m) वैप १  
 द्र. । n) =अन्यशुभ-द्वेष- (वैतु. आनर्तीयः क्वि. इति?) । o) पाभे. वैप १, ८३३ h द्र. । p) पूष. वाहु-  
 निर्देशपरं द्र. । q) भावे वर्तारि च कृत् । r) मर- इति पाका. । s) तु. पावि. । अर्थः? । t) पाभे. वैप  
 १, २४१३ c द्र. ।

१९, ५<sup>०</sup>; हिश्रौ; -<sup>०</sup>देऽदे आश्रौ  
७, ४, ३; शाश्रौ १२, ४, १२;  
-देन सु ६, १; -देपु वाश्रौ ३,  
३, ३, ११<sup>१</sup>.

मद्-गिल- -लः या ९, २४.

मद्-पति- -<sup>०</sup>ती आश्रौ ६, १,  
२; शाश्रौ ९, ४, ७.

मद्-भागिन्- -गिनः अप ७१,  
३, २.

मद्-मित्र<sup>०</sup>- -त्रम् अप ४३, ४,  
४९.

मद्-र- पा ४, २, ८०.

मदा(द-अ)वासि- -सिः अप  
६४, ४, ६.

मदिन्<sup>०</sup>- > <sup>०</sup>न्-न्तम- -<sup>०</sup>म  
आपश्रौ १४, २९, १; वैश्रौ;  
-<sup>०</sup>मः आपश्रौ १४, १८, १; २०,  
१३, ४; वौश्रौ.

मदिन्-न्तर- -रम् आश्रौ  
७, ८, २; शाश्रौ १२, २५, ६.

मदत्- -दन्निः अप ६८, ४, ४; -दन्  
वैताश्रौ ३१, २२<sup>१</sup>; -<sup>०</sup>दन्तः  
आश्रौ १, १२, ३६<sup>०</sup>; ४, ११,  
६; आपश्रौ; माश्रौ ३, १, २७<sup>०</sup>;  
अप्राय ४, १<sup>०</sup>.

मदन्ती<sup>०</sup>- -न्तीः आश्रौ ४, ५,  
५; काश्रौ ८, १, ८××; आपश्रौ;  
या ५, ६<sup>१</sup>; -न्तीनाम् वौश्रौ  
२०, ८ : २७; -न्तीभिः शाश्रौ  
५, ६, ९; आपश्रौ; -न्तीभ्यः  
वौश्रौ १, ९ : ६; २०, ८ : ३०;  
-न्तीम् वौश्रौ १, ४ : १२;  
-न्तीषु वौश्रौ ६, २० : २, ९.

मदन्तिपयोदोहस्तावत्पयः-

पूर्णा वैश्रौ ११, ९ : ९.

मदन्तीक- -कम् जैश्रौका  
४८.

मदन्त्य(न्ती-अ)वशेष- -षम्  
वैश्रौ १४, २ : २.

मदन्<sup>०</sup>- > <sup>०</sup>नीय- -यम् या ५, १;  
-याय या ४, ८.

रमदन, नार्- पाउना २, ७७; पाग  
३, १, १३४; -नम् या ९, २४;  
-नस्य अप ३६, ११, १; -ना  
या ११, २८; २९.

मदन-त्रयोदशी- -श्याम् अप  
१८<sup>३</sup>, १५, १.

मदन-सखि<sup>०</sup>- -खा या १३, ४.

मदय(त् >)न्ती<sup>०</sup>- -न्ती अप ५,  
१, ५.

मदयन्ती-प्रियङ्गु- -ङ्गुभिः  
अप १, ४३, ६; ४५, ७.

मदयित्नु- पाउ ३, २९.

मदितव्य- -व्यम् अप ४६, ३, ६<sup>१</sup>.

मदिर<sup>०</sup>- पाउ १, ५१; -<sup>०</sup>रस्य आश्रौ  
८, ४, ३; शाश्रौ १२, २६, ११;  
आपश्रौ.

मदिष्णु- -ष्णु या ४, १२.

मदेरु<sup>०</sup>- -रु या १३, ५<sup>१</sup>.

मद्य<sup>०</sup>- पा ३, १, १००; -दयम्  
अप ७१, १४, १; आपय १, १७,  
२१; हिष ५, ५३; गौष २, २६;  
या ५, १<sup>०</sup>र्षु; -दयानाम् विष ५१,  
२; -द्यानि आश्रौ ६, ५, २४<sup>१</sup>;  
विष २२, ८४; -द्वय अप ७०<sup>३</sup>,  
८, ३; -द्वयैः वाध ३, ५९; विष  
२२, ७७; २३, १.

मद्य-प<sup>०</sup>- -पः शंघ २०१.

मद्यप-स्त्री-गामिन्- -मी  
शंघ ३७८.

मद्यप-स्त्री-निषेवण- -णम्.  
विष ३७, ३३.

मद्य-पान- -ने वाध २०, १९.

मद्य-पीत- पाग २, २, ३७.

मद्य-भाण्ड- -ण्डे वाध २०,  
२१.

मद्यभाण्ड-(स्थ >)स्था-  
-स्थाः विष ५१, २४.

मद्यभाण्ड-स्थित, ता- -तम्.  
शंघ ४२२; -ताः शंघ ४२६.

मद्य-भासा(स-अ)चृत-प्रिय-  
-याः अप ७०<sup>३</sup>, १६, ४<sup>१</sup>.

मद्या(व-अ)नुगत-भोजन-  
-नम् विष ४१, ३.

मद्र<sup>०</sup>- पाउ २, १३; पाग ३, १,  
१३.

मद्र-कार-, मद्रं-कर- पा ३, २,  
४४.

मद्रा√कृ पा ५, ४, ६७.

√मद्राय पा ३, १, १३.

मद्वन्- पाउ ४, ११३; -<sup>०</sup>द्वने  
आश्रौ ६, ४, १०; शाश्रौ ९, १०,  
१; १८, ६, २; वैताश्रौ ४०, १.

मन्द- > मन्दिष्ट- -ष्टः माश्रौ २,  
१, ३, ११.

रमन्द, न्दा<sup>१</sup>- पाग ३, १, १२; १३;  
४, १, ४; ५, १, १२२; १२३;  
१२८<sup>m</sup>; -न्दः आशि ८, २१;  
-न्दम्<sup>m</sup> हिश्रौ १३, ५, १४; वैष्ट.  
१, ३; १३; -न्दम्<sup>m</sup> वैष्ट.  
५, १ : २५; -न्दा पा ४, १,  
४.

a) पागे. वैप १, २४१३ b द्र. । b) = ऋषि-विशेष- । c) वैप १ द्र. । d) हि मामद<sup>०</sup> (तु. BC.)? हिमाः, मद<sup>०</sup> इति शोधः । 'शतं हिमा मदन्तो हे देवा इह नः सुप्रजास्त्वं महि शर्म यच्छत' इति वा. । e) आप. । f) कर्तारि क्तु. । g) वस. । h) = नवमालिका- । i) पागे. वैप १, २४१५ b द्र. । j) विप., नाप. । k) टप. < √पा (पाने) । l) धा. आलस्ये वृत्तिः । m) पृ १८०३ ० द्र. । n) वा. क्वि. द. ।

मान्दय- पा ५, १, १२३;  
 १२८.  
 मन्द-गति-त्व- -त्वात् आशि  
 ८,२१.  
 मन्द-चा(र>)री<sup>२</sup>- -री आज्यो  
 १२,१०.  
 मन्द-ता-,मन्द-त्व- पा ५, १,  
 १२२;१२३.  
 मन्द-फल<sup>०</sup>- -लाः अप ५२, ८,  
 ३; १६,२.  
 मन्द-फलो( ल-उ )दय<sup>०</sup>- -याः  
 अप ५२,१४,३.  
 मन्दा(न्द-अ)ग्नि<sup>०</sup>- -ग्निः कप्र  
 १,९,१२.  
 ✓मन्दाय. पा ३,१, १२; १३.  
 मन्दिमन्- पा ५, १, १२२;  
 १२३.  
 मन्दी✓मू,मन्दीभवति बाध  
 ११,३६.  
 मन्दन<sup>०</sup>- पाठ २,८१.  
 मन्दन-जिह्व- -ह्रस् या ६, २३.  
 ऋमन्दमान<sup>०</sup>- -नः शांश्रौ १४,१६,  
 १०; -नाय या ११,९६.  
 ऋमन्दयत्- -यन् छसू ३,२ : ३३;  
 उसू ३,१.  
 मन्दसान<sup>०</sup>- पाठ २, ८७; -नः या  
 ८,२१; -ऋना आपमं १,६,१२;  
 काय २६, १२<sup>३</sup>; कौसू ७७, ८;  
 अप १०,१, १२; अप्रा ३,४,१.  
 ऋमन्दिन्- -न्दिने आश्रौ ८, ७,  
 २३; शांश्रौ; -न्दी वैगृ १, ४ :  
 २७;२,१० : १०; गौपि; या ४,  
 २४<sup>६</sup>; १३,६.  
 मन्दु<sup>०</sup>- -न्दुना वृदे २, १४१; या  
 ४, १२; -ऋन्दू अप ४८,११५;  
 वृदे २, १४१; १४२; निघ ४,

१; या ४,१२<sup>६</sup>;  
 मन्दु(र>)रा- पाठ १,३८.  
 मन्द्र,द्रा<sup>०</sup>- पाठ २,१३; पाग ४,  
 ४,६२<sup>१</sup>; -न्द्रः आश्रौ १,८,७<sup>१</sup>;  
 शांश्रौ; अप १,३६,१<sup>१</sup>; -न्द्रम्  
 आश्रौ ४, १३,७<sup>१</sup>; हिश्रौ २१,  
 १,१०; जैश्रौका ९६;११९; द्राश्रौ  
 ४, १, १८; लाश्रौ २,२,६; वृदे  
 ८, ११५; ऋप्रा १३, ४२; तैप्रा  
 २३, १०; पाशि ७; नाशि  
 १, ७, ७; -न्द्रया शांश्रौ  
 १, १४, २२; ८, १४, १;  
 ८; वैताश्रौ २०, २१; ऋअ;  
 -न्द्रस्य ऋअ २, ६,३९<sup>१</sup>; वृदे  
 ८, १२०; नाशि १, ७, २;  
 -ऋन्द्रा आपश्रौ १२, २४, ७;  
 १९, १३, २४; वौश्रौ; अप  
 ४८, १०२<sup>६</sup>; निघ १, ११<sup>६</sup>;  
 या ११, २८-२९<sup>६</sup>; -ऋन्द्राः  
 काश्रौ ४, २, ३२; आपश्रौ;  
 -न्द्राणि आश्रौ २, १५, १७<sup>१</sup>;  
 -ऋन्द्रासः शांश्रौ १५, ८, २०;  
 -न्द्रासु अअ ५, २७<sup>१</sup>; -न्द्रे  
 द्राश्रौ ३, ४, ७; नाशि; -न्द्रेण  
 आश्रौ १, ५, २५××; आपश्रौ;  
 -ऋन्द्रैः शांश्रौ ९, ५, ९; १२,  
 ९, ११; १८,११,३; वौश्रौ.  
 मान्द्र- पा ४,४,६२.  
 मन्द्र-कर्षण-संयुक्त- -क्तम् वृदे  
 ८,११३.  
 ऋमन्द्र-जिह्व- -ह्रस् वौश्रौ ३,  
 १८ : २; -ह्रस् या ६, २३<sup>६</sup>.  
 मन्द्र-न्तर- -रेण आपश्रौ १०,  
 ४, ११<sup>२</sup>; -रेणऽरेण वैश्रौ १२,  
 ५ : ८.  
 मन्द्र-मध्यम-तार- -राणि तैप्रा

२२,११.  
 मन्द्र-स्थान-समाहित- -तः वृदे  
 ८,१२०.  
 मन्द्र-स्वर- -रेण लाश्रौ १, ११,  
 २६.  
 मन्द्र-स्वार- -रः वाश्रौ १, १,  
 १,८१.  
 ऋमन्द्रा(न्द्र-अ)जनी<sup>०</sup>- -नी अप  
 ४८,१०२; निघ १,११.  
 मन्द्रा(न्द्र-आ)दि- -दयः तैप्रा  
 २३,१७; -दिः मीसू ३,२,२६;  
 -दिसु तैप्रा २३,१३.  
 मन्द्रा(न्द्र-अ)न्त- -न्तान् नाशि  
 १,१,११.  
 ✓मन्दि, मन्द्रयते निघ ३,  
 १४<sup>१</sup>.  
 माद-> ०द-स्थ- -स्थयोः पा ६,  
 ३,९६.  
 ऋमादन<sup>०</sup>- -नम् आश्रौ ६, ४,१०;  
 शांश्रौ ९,८,१.  
 मादयित्नु- -त्वे लाश्रौ ७, १०,  
 १३<sup>१</sup>.  
 मादिन्- पा ३, २, १४१.  
 मद्-, मद्-, मदत्- ✓मद् द्र.  
 मदिन्<sup>०</sup>- (> मादद्य- पा.) पाग  
 ४,२,८०.  
 मदनुग्रह- प्रष्ट. अस्मद्- द्र.  
 मद्यत्- प्रष्ट. ✓मद् द्र.  
 मदाव<sup>०</sup>- पाग २,४,६९.  
 मदार- पाठ ३,१३४.  
 मदावास्ति-, मदि<sup>०</sup> ✓मद् द्र.  
 मदुघ<sup>०</sup>- -घम् कौसू ३८, १७; -घात्  
 अप्रा ३,४,१<sup>१</sup>.  
 मदुघ-मणि- -णिः अप ३७,९,१;  
 -णिम् कौसू ७६,८; ७२, १०.  
 मदुर->मदुर-कन्थ-मडर- टि.द्र.

a) उस. उप. अणन्तम् । b) वस. । c) वस. > पस. । d) वैप १ द्र. । e) विप., नाप.  
 (स्वर- [ऋप्रा. प्रष्ट.]) । f) अर्थः ? । g) =वाच्- । h) शरदिन्- इति पाका. । i) व्यप. ।

सद्गु<sup>०</sup>- पाठ १, ७; पाग ७, ३, ५३;  
 -द्वगुः विध ४४, २२; वैध ३,  
 १२, १२; -द्वोः वैध ३, १५, ३.  
 सद्गु-हंस- -सम् शंघ ४२६.  
 सद्गुर- पाठभो २, ३, ५२; पाग ६,  
 २, १२५<sup>०</sup>.  
 सद्गुर-कन्ध- पा ६, २, १२५.  
 सद्-गृह- प्रसृ. अस्मद्- द्र.  
 १मद्- मघ- प्रसृ. ✓मद् द्र.  
 २मद्- -द्वान् अप ५०, २, ४; -द्वेभ्यः  
 पा ४, २, १०८.  
 मद्र-क- पा ४, २, १३१; पावा ४,  
 ३, १००<sup>०</sup>; -काः अप ५७, २, ५;  
 -कान् अप ५०, १, ५.  
 मद्रक-स्थ(ल>)ली-(>माद्रक-  
 स्थलक- पा.) पाग ४, २, १२७<sup>०</sup>.  
 मद्र-कूल- (>माद्रकूलक- पा.)  
 पाग ४, २, १२७.  
 मद्र-कैक्य- -याः अप १, ७, १.  
 मद्रा(द्र-अ)र्म- पा ६, २, ९१.  
 मद्रण<sup>१</sup>- -णाः वौश्रौप्र २० : १.  
 मद्रशर्मन्<sup>०</sup>- (>माद्रशर्मि- पा.)  
 पाग ४, १, ९६.  
 मद्रुक->क-स्थ ( ल >)ली<sup>०</sup>-  
 (> माद्रुकस्थलक- )  
 १ म्द्रमर->र-कन्ध-)मडुर- टि. द्र.  
 मद्रयच्- अस्मद्- द्र.  
 मद्रन्- ✓मद् द्र.  
 मघविक-, मघव्य- १मधु- द्र.

१मधु<sup>०</sup>- पाठ १, १८; पा ४, ४, १२९;  
 पाग २, ४, ३१; ४, २, ८०<sup>०</sup>; ८६;  
 ३, ११८; ५, ४, ३<sup>०</sup>; ३८<sup>०</sup>; १५१;  
 ८, २, ९; पागम ४३१; -फंधवे  
 काश्रौ २, १३, २<sup>०</sup>; आपश्रौ १२,  
 २६, १२<sup>०</sup>; वौश्रौ ७, १६ : २<sup>०</sup>;  
 भाश्रौ ८, ३, ६; माश्रौ १, ७,  
 २, ७; २, ४, २, २<sup>०</sup>; ३<sup>०</sup>; हिश्रौ  
 ५, १, ३०; ८, ८, ४<sup>०</sup>; शुअ १,  
 ४७२<sup>०</sup>; -धु फआश्रौ २, १०,  
 ४<sup>०</sup>; ४, ७, ४<sup>०</sup>; १२, २<sup>०</sup>; ५, ५,  
 १८; १०, १०××; फंशाश्रौ १, ५,  
 ९<sup>०</sup>××; १७, १४, १४<sup>०</sup>; फंकाश्रौ  
 १३, ३, २६<sup>०</sup>××; फंआपश्रौ  
 ४, ८, ३; १४, ४<sup>०</sup>××; काश्रौसं;  
 फंश्रौश्रौ १, २० : ३३<sup>०</sup>; १४,  
 १३ : १२<sup>०</sup>; १६, २३ : ११<sup>०</sup>;  
 भाश्रौ ४, २०, ६<sup>०</sup>; माश्रौ २, ४,  
 २, ११<sup>०</sup>; हिश्रौ ६, ४, १५<sup>०</sup>;  
 द्राश्रौ ११, ३, १७<sup>०</sup>; लाश्रौ ४,  
 ३, १८<sup>०</sup>; कौश्र १, १७, ६<sup>०</sup>;  
 शांश्र १, २५, ७<sup>०</sup>; ५, १०, १;  
 फंआमिग १, ५, ४ : १७<sup>०</sup>; २,  
 ६, ८ : ३८<sup>०</sup>; वौश्र ३, ६, १;  
 भाश्र १, १७ : १२<sup>०</sup>; हिश्र १,  
 १७, ५<sup>०</sup>; २४, ६<sup>०</sup>; जैश्र १,  
 ४ : २७<sup>०</sup>; २, ७ : ३; फंअप  
 ४८, ७५<sup>०</sup>; १०२<sup>०</sup>; निघ १,  
 १२<sup>०</sup>; या २, २; ४, ८<sup>०</sup>××;

१०, ३१<sup>०</sup>; -फंधु-धु आपश्रौ  
 १५, ८, ६; वौश्रौ ९, ८ : ३;  
 भाश्रौ;-फंधुः काश्रौ १७, ४, २४<sup>०</sup>;  
 आपश्रौ ८, २, १८<sup>०</sup>; १२, २६,  
 ११<sup>०</sup>; १४, २८, ४<sup>०</sup>; १६, २४, ९<sup>०</sup>;  
 २०, २०, ५<sup>०</sup>; वौश्रौ १०, ३२ :  
 ३<sup>०</sup>; माश्रौ ६, १, ८, ७<sup>०</sup>; वाश्रौ;  
 वैश्रौ १५, ३४ : १<sup>०</sup>; आपसं १,  
 १०, ८<sup>०</sup>; आमिग १, ७, ४ : १०<sup>०</sup>;  
 वौश्र ४, १२, ४<sup>०</sup>; -धुनः आपश्रौ  
 ४, ३, ८××; वौश्रौ; आश्र १,  
 १५, १<sup>०</sup>; या ४, ८; -धुना  
 आश्रौ २, १०, १८<sup>०</sup>; काश्रौ  
 ४, २, ३२<sup>०</sup>; १२, ३, १४;  
 आपश्रौ; कौश्र १, २१, ७<sup>०</sup>;  
 शांश्र १, २८, ८<sup>०</sup>; या ८,  
 ६६; १७; १८<sup>०</sup>; १०, ३१;  
 -धुना-धुना वाश्रौ ३, २, ५,  
 ५७<sup>०</sup>; -धुनि जैश्रौ २५ : ६;  
 कौश्र २३, ३९; अप; -फंधुनाम्  
 आश्रौ ५, ५, ४; क्रप्रा ७, ३२;  
 -धुनि अप ७०<sup>०</sup>, २३, ९; वाघ  
 २२, ९<sup>०</sup>; वौध ३, १०, ११<sup>०</sup>; गौध  
 १९, १३<sup>०</sup>; -फंधो हिश्रौ १२,  
 ६, ६<sup>०</sup>; -घोः फंआश्रौ ४, ७, ४; ६,  
 ३, १; ८, ४, ३; शांश्रौ; द्राश्रौ  
 १४, ३, ४<sup>०</sup>; लाश्रौ ५, ७, ३<sup>०</sup>;  
 कौश्र ३, २, २<sup>०</sup>; शांश्र ३, २,  
 ५<sup>०</sup>; -घौ या ६, २७<sup>०</sup>, -घ्वः

a) वैप १ द्र. । b) तु. पासि. । c) =देश-विशेष- वा तद्रासिन्- वा । d) <माद्र- । e) तु.

पागम. । मद्रुकस्थली- इति भाण्डा. प्रसृ. । f) व्यप. । g) अर्थः? । h) =चंद्रनास- । i) पाभे.  
 वैप १, २४१९ e द्र. । j) सक्त पाभे. वैप १, १५७१ l द्र. । k) पाभे. वैप १, २४१९ g द्र. । l) सक्त  
 पाभे. पृ ५९३ i द्र. । m) पाभे. वैप १, २४१९ j द्र. । n) पाभे. वैप १, २४१९ n द्र. । o) पाभे. वैप २,  
 ३२. मिथु तैत्रा ३, ७, ११, ५ टि. द्र. । p) सक्त मधु हे <>?मधुगे इति पाभे. । अन्यत्र मध्विदं मधु इत्यस्य  
 स्थाने सपा. वौश्र १, ४, ४ ?मध्वगाहे इति, भाश्र १, १७ : १३ ?मध्वगाहे इति च पाभे. । q) =मधुमदिका- (तु.  
 सप्र. शांश्र [५, १०, १]; वैतु. शब्दसूची मध्वगागारे इति समस्तं पदमिति) । r) =उदक- । s) =यान्- । t) सपा.  
 शांश्र १, २४, ४ मधुमत् इति पाभे. । u) पाभे. वैप १, १९०८ d द्र. । v) पाभे. वैप १, २४१९ b द्र. ।  
 w) = (मधुशब्दयुक्त-) अनुवाक-विशेष- । x) पाभे. वैप १, २४२० p द्र. । y) सपा. पाश्र ३, ४, ४ वसोः इति पाभे. ।



ऋशाश्री २, १९, ३२; ४, ७, ४<sup>२</sup>; ५, ५, १९; ६, ३, १<sup>७</sup>; ७, ८, २<sup>०</sup>; ८, ८, ९; ऋशाश्री ३, १७, १; ८, १५, १९<sup>१</sup>; ९, ५, २<sup>७</sup>; १२, २५, ६<sup>०</sup>; काश्री २५, ६<sup>१</sup>; ७<sup>१</sup>?<sup>१</sup>; आगृ; या, ४, ८<sup>१</sup>?<sup>१</sup>; -<sup>१</sup>च्वा शाश्री ७, १०, १२; आपश्री; या ८, ६; १०, ३१<sup>१</sup>.  
 १माघव<sup>१</sup> पा ४, ४, १२९; ५, ४, ३८; -<sup>१</sup>चः आश्री ४, १२, २; काश्री १७, ४, २४; आपश्री; -<sup>१</sup>चाय आपश्री १२, २६, १२; वीश्री.  
 माघवक- पा ४, ३, ११८.  
 १मा(ध्व>)घ्वी<sup>१</sup> पा ६, ४, १७५; -घ्वी विघ २२, ८२; -<sup>१</sup>घ्वीः आमिगृ ३, ३, २ : १; ३; कौस् ९१, १<sup>२</sup>.  
 मघविक- पा ४, २, ८०.  
 मघव्य- पा ४, ४, १२९; १३९; -<sup>१</sup>च्यः वाधूश्री ४, २९ : ५<sup>३</sup>?<sup>३</sup>; जैश्री; -<sup>१</sup>च्यम् आपमं २, १०, ५; पागृ १, ३, २०; आमिगृ १, ४, १ : ५; वीगृ १, २, ३७; भागृ २, २४ : ७; वैगृ २, १६ : ५; हिगृ १, १३, ८; -<sup>१</sup>च्यस्य कागृ २४, १३<sup>३</sup>; -<sup>१</sup>च्येन आपमं २, १०, ५; पागृ १, ३, २०; आमिगृ १, ४, १ : ६; वीगृ १, २, ३७;

भागृ २, २४ : ८; हिगृ १, १३, ८.  
 १मधु-क<sup>१</sup> पाउभो २, २, २६<sup>१</sup>; पा ५, ४, ३; -कः अप २६, ५, ६<sup>१</sup>.  
 मधुक-मणि-सूक्त<sup>१</sup> -क्तम् अत्र १, ३४.  
 मधुक-मरिच- -चयोः पावा ५, १, ७७.  
 मधु-कर्ण- (> माधुकर्णिक- पा.) पाग ४, २, ८०.  
 ऋमधु-कशा<sup>१</sup> -शया काश्री २३, ३, १; आपश्री २२, १९, १; हिश्री १७, ७, १०.  
 ऋमधु-कृत्<sup>१</sup> -कृत् आपश्री १६, २७, ७; -कृत् वीश्री ३, ९ : २; ऽवाधूश्री ४, २९<sup>३</sup> : ६-८.  
 मधु-कैटम<sup>१</sup>-सूदन- -०न विघ १, ५४.  
 मधु-क्रोडा-फल<sup>१</sup> -लानि अशां १५, ४.  
 मधु-क्षीर-समन्वित- -तैः अप ७०, १२, ५.  
 १मधुगे<sup>१</sup> वीगृ १, ४, ४.  
 मधु-ग्रह- -हम् काश्री १४, २, ९; ४, १५; १७; -हस्य शाश्री १६, १७, ९.  
 मधु-ग्लुन्य<sup>१</sup> -न्यः आपश्री ६, ३१, ५.  
 १मधु-घृत- -तम् नाशि २, ८, ७<sup>१</sup>?<sup>१</sup>;

-तस्य अप ७०, ४, ९; -ते पागृ १, १६, ४; २, १३, २.  
 २मधु-घृत- -तान् कौस् १३९, १७.  
 मधुघृत-युत- -तम् विघ ९०, २६.  
 मधुघृत-संयुक्त- -क्तम् विघ ७९, १०.  
 मधु-घृत-तिल- -लैः विघ ७३, २४.  
 मधु-घृत-तैल-वसा-प्रदिग्ध- गात्र- -त्रः अप ६८, ४, १  
 मधु-चर्मन्<sup>१</sup> -माणि वीश्री १५, १६ : २.  
 मधु-च्छन्द<sup>१</sup> -> माधुच्छन्द- -०न्द वैघ ४, १, ८.  
 मधुच्छन्द-वत् वैघ ४, १, ८.  
 मधु-च्छन्दस<sup>१</sup> -न्दसः शाश्री १५, २६, १<sup>१</sup>?<sup>१</sup>; वृदे २, १२६; अप ४३, ४, ३८<sup>१</sup>?<sup>१</sup>; -न्दसि ऋप्रा १७, ३१<sup>१</sup>?<sup>१</sup>; -न्दाः शाश्री १५, २६, १<sup>२</sup>; कौगृ २, ५, १; ऋअ २, १, १; ९, १; वृदे ३, ५७; शुअ १, १९१××; साअ.  
 माधुच्छन्दस<sup>१</sup> -०स आश्री १२, १४, ४<sup>१</sup>?<sup>१</sup>; आपश्री २४, ९, ४; ६; वीश्रीप; -सः शाश्री १०, २, ३××; ऋअ; -सम् आश्री ५, १०, ९; लाश्री ७, १, १; निस् ३, १० : ५; गीपि २, ४, ७; -साः आपश्री २४, ९, ५; -सान् शाश्री ७, १०, ३; -सानि शाश्री ११,

a) पाभे. वैप १, २४२० p द्र. । b) पाभे. वैप १, २४२१ e द्र. । c) पाभे. वैप १, २४२१ c द्र. ।

d) सृ° इति पाठः? यनि. शोधः (तु. शौ ७, ३, १) । e) जाणौ प्र. । f) वैप १ द्र. । g) =सुरा- ।

h) नाप. । i) <√मच् । j) =वृद्ध-भेद- । k) तु. सा (भू. [शौ १, ३४]), मधुघ° इति w. । l) द्रस.

पूप. =राक्षस-विशेष- । m) द्रस. । क्रोडा- =वाराहीकन्द- । n) पाठः? तु. पृ १९१० q टि. । o) अर्थः व्यु.

च? । = [अनिदचोतित-मधु-] मधुकोश- इति [तु. C.], अन्ये [मधुमिश्र-] गुड- इति भाष्यम् । p) धूमघु°

इति पाठः? यनि. शोधः (तु. लासं.) । q) उप. = [चर्ममय-] पात्र-विशेष- । r) =मधुच्छन्दस्- । s) ऋपि-

विशेष- । वैप २, ३३८. द्र. । t) °न्दासि इति पाठः? यनि. शोधः (तु. प्रकरणम् [ऋपितर्पणम्]) । u) =मधुच्छन्दसा

दृष्टायाम् ऋचि । v) विप., व्यप. ।

१०,४; -से शांश्रौ १०,१,१९;  
निसू ३,१२ : १०.

माधुच्छन्दसी- स्त्री  
गौपि २,४,७.

माधुच्छन्दस-गार्त्समद्-  
-द्वौ शांश्रौ ११,१०,३.

मधुच्छन्दः-प्रभृति- -तयः शांश्रौ  
१५,२६,१; -तिभिः ऋञ्ज २,  
३,४.

मधुच्छन्दो-वत् आपश्रौ २४, ९,  
४;६; वौश्रौप्र ३६: ४; ३७: २;  
हिश्रौ २१,३,१२.

मधु-नालक- -कम् अप ६७,२,१.

मधु-जिह्वा- -ह्यः आपश्रौ १,२०,  
२; भाश्रौ १,२१,९; हिश्रौ १,  
५, ५४<sup>२</sup>; -ह्याः आपश्रौ १६,  
१८, ७; वैश्रौ १८, १६:३; हिश्रौ  
११, ६,२९.

मधु-नोक्म-मिश्र- -श्रम् वाश्रौ ३,  
३,२,३१.

मधु-दधन्- -धिन अप ७०,६,३.

मधु-दधि-धृता ( त-अक्त > )क्ता-  
-क्तानाम् काथ २७६: ३.

मधु-देवता-> त्य- -त्यम् अथ  
९,१.

मधु-धामन्- -न्तोः वैश्र २,  
१७: ३.

मधु-धार,रा- -रम् या १०,१३;  
-रा अप्रा २,२,१६.

मधु-धेनु- -नुम् अप ९, ३, २.

मधु-नाडी<sup>b</sup>- -ड्यौ शांश्रौ १५, ३,  
१.

मधु-पयः-कुल्या- -ल्याभिः कप्र

२,४,१३.

मधु-पर्क<sup>a</sup>- पाग ५, १, ६६; -कैः

शांश्रौ ३,१२,६; ४,२१,६; २४;  
काश्रौ ४, ६, १९; आपश्रौ ६,

३१, ५; आश्र १, २४, ७; ३३;  
कौश्र १,१६, ५; ४, ४, ८; शांश्र

४,१७,६; आश्रिण २,६,६:१८;  
आपश्र १२, १०; काश्र १३, ६;

२४,२०; वौश्र १, २, ३३; भाश्र  
२, २४: ७; माश्र १, ९, २२;

हिश्र १,१२,१४; १३,७; कप्र ३,  
१०,१८, कौसू २०,२३<sup>१</sup>; २२,

१-६<sup>१</sup>; ८-१०<sup>१</sup>; ११; १६;  
आपश्र २,८,७; ८; हिश्र २, १,

१०९; गौध ५,२८; -कैम् वौश्रौ  
६, ११: २२; १७, ४३: १६;

वैश्रौ; -कैस्य द्राश्रौ १, २, ५;  
लाश्रौ १,२, १; काश्र २४, १३;

-कर्त्त वौश्र १,२, ६२; -कैय  
कौसू २०,३; -कै कौश्र ३, १०,

३५; शांश्र २,१६,१; नाथ ४,६;  
विध ५१, ६४; -कैण भाश्र २,

२३: ४.

माधुपर्कि(क>)की<sup>c</sup>- -क्यः  
कौश्र १,८, १०<sup>d</sup>; -क्यौ शांश्र  
१,१२,१०.

मधुपर्क-दान- -नम् वैश्र २,  
१६: ९.

मधुपर्क-पुरोग( म > )मा<sup>e</sup>-  
-माम् अप १,४९८.

मधुपर्का(कै-रश्वा)दय- -दयेन  
अप ३,१,१४.

मधुपर्का(कै-अ)र्थ- -र्यान्-

आश्रिण २, ६,६: ६.

मधुपर्क्य- पा ५,१,६६.

मधु-पांसु-वर्ष<sup>f</sup>- -वर्षम् कौसू ९४,  
१४<sup>१</sup>.

मधु-पान<sup>g</sup>- -नम् वौश्रौ २, ९:  
१६; माश्र २, १४, २८.

मधु-पायस-सर्पिस्- -र्षिषाम् अप  
७०<sup>३</sup>,५,१.

मधु-पूर्ण- -र्णम् वैश्रौ १७, १४:  
५.

मधु-पूर्व<sup>h</sup>- -वर्षम् वौश्रौ २८, ८: ६.  
मधु-फाणित- -ते अप १, ४८, ७.

मधु-सक्षा(क्ष-अ)नाचार- -रे कौसू  
२३,२५.

मधु-सक्षिका- -काः कौसू ११८,  
१.

१मधु-मत्<sup>i</sup>- पा ४, २, ८६; पाग  
८, २, ९; -मत् आश्रौ ५,

१८, ५; काश्रौ ९, ८, १५<sup>m</sup>;  
आपश्रौ १, ११, १०××; वौश्रौ;

कौश्र १, १६, ७<sup>१</sup>; शांश्र १, २४,  
४<sup>१</sup>; -मत्तः आश्रौ ४, ७, ४<sup>१</sup>;

शांश्रौ; -मति शांश्रौ १८,  
१५, ५; गौपि २,४,७; -मन्तः

आपश्रौ १,२१,५; वैश्रौ; या १०,  
२४; -मन्तम् आश्रौ ५, १,

१५; ६, ३, १६; ९, ११, १५;  
शांश्रौ; आपश्रौ १६,१२,११<sup>k</sup>;

माश्रौ ६, २, ६, २०<sup>k</sup>; आश्रिण  
३, २, २: १६९; हिश्र २, १४,

७९; या १०, १६; -मन्ति<sup>l</sup>  
आपश्रौ १४, २८, ४; माश्रौ;

हिश्रौ १५, ७, १२<sup>m</sup>; -माम्

a) वैप १३. d) वैतु. भाष्यम् 'क्य->-क्यः इति ?।

b) =सूक्त-विशेष- [ऋ ३, ५४; ५५]।

c) विप. (गो-)। तस्येदमित्यर्थे तत्र

देयेऽर्थे वा ढक् प्र.।

d) वैतु. भाष्यम् 'क्य->-क्यः इति ?।

e) वस.।

f) दस. >पस. उप.=श्रुति।

g) कस. वा पस. वा।

h) उत्तमम् इति चोत्तं.। पाभे. वैप १, २४२३ d द्र.।

i) पाभे. १९१० u द्र.।

j) पाभे. वैप १, १०१७ k द्र.।

k) सक्तु पाभे. वैप १, ९८७ c द्र.।

l) पाभे. वैप १, २४२३ i द्र.।

m) 'मति इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ. प्र.नु.)।

आपश्रौ ५,९,१०; १७,४; १३.  
 १५, १४; वौश्रौ; या ७, १७.  
 ँमधुमती- ती वैश्रौ १५,  
 २१: ८; हिश्रौ ८,५,१०; -ती:  
 आश्रौ ९, ११, १६; शाश्रौ ७,  
 १८, ९<sup>३</sup>; ८, ९, २<sup>३</sup>; काश्रौ;  
 वौश्रौ ८,६: १८<sup>३</sup>; या १०,१९;  
 -तीभिः शाश्रौ ८, ९, २<sup>०</sup>;  
 वौश्रौ; -तीम् शाश्रौ १, ५, ९;  
 काश्रौ; -त्यः निसू २, ११:  
 २४<sup>३</sup>; आग्निगृ.  
 ँमधुमत्-तम,मा- -मः शाश्रौ  
 ६, ६, ८; ९, २०, १६; उनिसू  
 ५: ३५; ७: १८; -मम् आश्रौ  
 ३, १, १४<sup>०</sup>; शाश्रौ ६, ९, १७<sup>०</sup>;  
 आपश्रौ; वैताश्रौ १८,५<sup>०</sup>; -मस्य  
 आश्रौ ६, १, २; शाश्रौ ९, २, ६;  
 -मा वौश्र २, ५, ४१; -मा:  
 आश्रौ ५, १६, २; ७, ४, ३; ८,  
 ३, ३२; शाश्रौ.  
 मधु-मत्स्य-मांस-सूतकप्रेतकावाद्य-  
 (दि-अ)भोज्य-भोजन- -ने वैश्र  
 ६, ९: ८.  
 मधु-मन्त्र-विवाजित- -तः कप्र १,  
 २, ७.  
 मधु-मन्थ- -न्यः आपश्रौ ६, ३१,  
 ५; -न्यम् हिश्रौ ६, ८, १; कौसू  
 ६६, १५; ८३, ३१; अप १,  
 ४९, ४; अशां १३, ३; -न्यस्य  
 द्राश्रौ १, २, ११; लाश्रौ १, २,  
 ७; -न्यान् आगृ २, ५, २;  
 -न्यानाम् वाश्रौ १, ६, ६, १४;  
 -न्ये कौसू २९, १५; ३५, ९;  
 -न्येन अशां १३, ३.

मधुमन्थ-वर्जम् आगृ २, ५, ४.  
 मधु-मांस- -सानि हिध २, ५,  
 १४५; -से काश्र १, ७; मागृ १.  
 १, १२; २, २१; १८, ७; वागृ ६,  
 १९; गोश्र ३, १, २१; -सन शंघ  
 २८१<sup>३</sup>; -से: वाघ ११, ४०<sup>६</sup>.  
 मधुमांस-भक्षिन्- -क्षी आगृ  
 २, ७, १: १.  
 मधुमांस-वर्जम् वाघ १०, २४.  
 मधुमांसा(स-अ)शन- -ने विध  
 ५१, ४५.  
 मधु-मांस-गन्ध-माल्य-दिवास्वप्ना-  
 (प-अ)ज्जना(न-अ)भ्यज्जना-  
 यानो(न-उ)पानत्-छत्र-काम-  
 क्रोध-लोभ-मोह-वाद-वादन-  
 स्नान-दन्तधावन-हर्ष-नृत्त-गीत-  
 परिवाद-भय- -यानि गौध २,  
 १९.  
 मधु-मांस-घृत-तैल-क्षार-लवणा (ण-  
 अ)वरात्र-वर्ज- -जेषु वौध ४,  
 १, ७.  
 मधु-मांस-मज्जो (न-उ)पर्यासन-  
 स्त्रीगमना( न-अ )नृता( त-अ )  
 दत्तादान- -नानि पागृ २, ५,  
 १२.  
 मधु-मांस-मत्स्य-नस-शुक्लाद्य( दि-  
 अ)भोज्य-भोजन- -वर्जिन्<sup>३</sup>-  
 -र्जी वैध १, २, ९.  
 मधु-मांस-मद्य-लवण- -णानि वौध-  
 २, ३, ६०.  
 मधु-मांस-लवण-पर्युषितान्न- -न्नम्  
 वैध १, ९, ३.  
 मधु-मांस-लवण-श्राद्ध- -द्धानि  
 कागृ ५, ८.

मधु-मांस-लवण-स्य( स्त्री-अ )वले-  
 खन- -नानि आश्रौ २, १६, २४.  
 मधु-मावर्त- -वे अप ६४, ९, २.  
 मधु-मिश्र- -श्रम् वौश्रौ ९, १३: २;  
 १०, २७: ७××; कौसू; -श्रान्  
 आपश्रौ १६. २०, १; वौश्रौ  
 १५, २५: ११; हिश्रौ ११, ६,  
 ४७; लाश्रौ ८, ११, २५; कौसू  
 २२, १०; अप १, ४८, ५; -श्रे  
 माश्रौ ६, २, ४, १९; -श्रेण  
 आपश्रौ १५, १४, १३; १५, १××;  
 वौश्रौ; -श्रै: गौध १५, १४<sup>१</sup>.  
 मधुमिश्र-तिल- -लै: अशां १३,  
 २.  
 मधु-मेह<sup>३</sup>-> °हिन्- -ही शंघ  
 ३७८.  
 मधु-युत,ता- -तान् शंघ २२१;  
 -ताम् शंघ २२०.  
 मधु-र- पा ५, २, १०७; पाग ४,  
 २, ८०<sup>१</sup>; ५, १, १२३; -र: माशि  
 १४, ७; -रम् विध ६१, ६;  
 शुप्रा: नाशि १, ३, १<sup>३</sup>; -राणि  
 अप ६८, १, ३४; -रै: अप २१,  
 ४, १; ६, ५.  
 माधुर्य- पा ५, १, १२३;  
 -र्यम् शैशि २०७; २११; माशि  
 ४, ३; १४, १०; याशि १, ३७;  
 २, ८३; नाशि २, ८, ५; -र्यात्  
 माशि १४, ७.  
 मधुर-ता- ,त्व- पा ५, १, १२३.  
 मधुर-श्वेत-पीत- -तानि अप  
 ६८, १, ३६.  
 मधुरस्वररिष्टव्याहरण- -णम्  
 अप ६५, २, ९.

a) पासे. वैप १, २४२४. d द्र. । b) पासे. वैप १, २४२४ e द्र. । c) पासे. वैप १, २४२४ g द्र. ।  
 d) = ऋच्- । e) पासे. वैप १, २४२३ d द्र. । f) सम.हारे द्रस. । g) परस् रं पासे. । h) द्रस.>  
 कस.> उस. । i) मासयोः समाहारे द्रस. । j) St. पाठः । k) = रोग-विशेष- । l) अर्थः ? ।  
 m) = गानगुणवृत्तिविशेष- ।

मधुरा(र-आ)स्वाद- इम् आगृ  
२,८,६.  
मधुरिमन्- पा ५,१,१२३.  
मधुरिल- पा ४,२,८०.  
१मधुरेतो<sup>१</sup> आश्रौ ४,१२,२५.  
मधु-लवण-नांस-माप-वर्जम् कौसू  
१,३२.  
मधु-ल>)ला<sup>१</sup>- नैला आपश्रौ  
१५,२,२; ६; वीश्रौ ९, ३:९;  
माश्रौ; -लाम् अत्र ५,१५६.  
मधुला-वृष-लि(ङ्ग>)ज्ञा<sup>१</sup>-  
-ज्ञामिः कौसू २९,१५.  
मधु-लाजा-मिश्र- -श्रैः अप १८,  
१,११.  
मधु-वनस्पति<sup>१</sup>- -तिम् अत्र १,  
३४.  
मधु-वर्ण<sup>१</sup>- -र्णः आश्रौ ३,८,१५.  
मधु-वाच्- -वाचः अत्र ५,७.  
मधुवातीय,या<sup>१</sup>- -यम् शंघ २१८;  
-याः कौसू ३, १४, ४; शांश्रु ४,  
१,८.  
१मधु-वादि(न्>)नी- -नी वीगृ  
१, ४, ४; भागृ १, १७, १३;  
हिगृ १,२४,६.  
१मधु-श्चुत्- -श्चुतः काश्रौ ९,१०,  
१२; १०, २, २; ३ऽः आपश्रौ;  
-श्चुन्म्<sup>१</sup> वाश्रौ ३, २, ५, २१;  
आपमं २, १८, ४८; आश्रिगृ २,  
५, १२: ११; या १०,१६.  
मधुश्चुन्-निघन<sup>१</sup>- -नम् छुत्  
२, १५: १४; ३, ८: ५; गौपि  
२,४,१२.

मधु-श्चुन्->°श्चुन्-निघन<sup>१</sup>-  
-नम् जैश्रौ २५: ७; जैश्रौप १५;  
-नात् द्राश्रौ ८, २, ३; लाश्रौ ४,  
६, ३.  
मधु-घा(<स्था)ल<sup>१</sup>- -लम् आपश्रौ  
१८,५,५; हिश्रौ १३, १, ६४<sup>१</sup>.  
मधु-संयुक्त- -क्तम् वाध २६,  
१८; -क्ता अप २६, ४, १.  
मधु-संयुत- -तः गौपि २,३,१७५;  
वौध ३,६,४; विध ४८,१७.  
मधु-संसृष्ट- -ष्टम् आपध २,८,८<sup>३</sup>;  
हिध २,१,११०<sup>३</sup>.  
मधु-सर्पिस्- पाग २, २, ३१; ४,  
१४; -र्पिर्म्याम् अप ३६, १२,  
१; -र्पिषा आश्रिगृ ३, ११, ४:  
४६; अप १,४५, ६; ५, ४, १;  
-र्पिषि अप ७०, ६, २; -र्पिषो  
वाध २८, २२; विध ८७, १०;  
-र्पिषोः गौध १३,२०.  
मधुसर्पिः-समन्वित- -तम् अप  
७०<sup>३</sup>,९,२.  
मधु-सर्पिस्-तिला(ल-आ)त्मक-  
-कम् अप ३६,३०,१.  
मधु-सहित- -तान् अशां १३, १.  
मधु-सुक्त<sup>१</sup>- -क्तेन वैताश्रौ १६, १२.  
मधु-सूदन<sup>१</sup>- पाग ३,१,१३४; -नः  
विध १,१३; -नम् आश्रिगृ २,  
५,७: १०; वीगृ १, ११: ७;  
वैगृ ३,१३: ४; वौध २,५,२४;  
विध १, ४०; ४४; -नस्य विध  
९९,७; -ने विध ९९,२२.  
मधु-सोम-पान- -नम् आश्रयो ८,३.

मधु-साव- -वे अप ७०<sup>३</sup>,८,४.  
मधु(धु-उ)क्त- -क्ते वैध ३,५,६.  
मधु(धु-उ)च्छिष्ट<sup>१</sup>- -ष्टे अप ३१,  
१,४.  
मधु(धु-उ)त्कट- -टेन विध ७८,५३.  
मधु(धु-उ)तिसक्त- -क्तेन कौसू ८२,  
२७.  
मधु(धु-उ)दक- -के आपश्रौ १९,  
२१,१६; हिश्रौ २२,४, ६; वौध  
१,६,४७; मीसू ८,१,४०.  
मधुदक-वत् मीसू ९,४,३०.  
मधु(धु-उ)दृशिवत्- -शिवत् कौसू  
३१,२३.  
मधु(धु-उ)द्युत- -तान् माश्रौ ६,  
१,६,२; वाश्रौ २,१,५,८.  
मधु(धु-उ)द्वाप<sup>१</sup>- -पान् कौसू २९,  
१०.  
✓मधुय > १मधुयु<sup>१</sup>- -युवा  
क्रंश्रौ ९, १६.  
मध्व(धु-अ)पूप- -पान् अप १,४८,  
३.  
मध्व(धु-अ)लाम- -भे आगृ १,२४,  
६.  
मध्व(धु-अ)शन<sup>१</sup>- -नः भाश्रौ ८,  
३,२७.  
मध्वा(धु-आ)ज्य-कुल्या- -ल्यामिः  
कप २,४,१६.  
मध्वा(धु-आ)ज्य-दधि-दुग्ध- -ग्धेषु.  
अप ७०,५,२.  
१मध्वापम्<sup>१</sup> वाश्रौ ३,४,२,४.  
मध्वा(धु-आ)शिन्- -शी काश्रौ ५,  
२,२१.

a) शोधः वैप १,२४१९ गृद.। b) वैप १ द्र.। c) नाप.(श्रोपधि-)। d) विप.(ऋच्-)| दस.>  
वस.। c) पूष. =मधुघ- (तु. कौसू ३८,१७)। f) < मधु वाताः (ऋ १,९०,६)। g) पाशे. वैप १,  
२४२५ | द.। h) =साम-विशेष-। वस.। i) ष्योष्ठा इति पाठः? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ.)।  
j) पूष. =मधुशब्द-क्त-। k) विप. > नाप. (विष्णु-)। उस. पूष. =राक्षस-विशेष-। l) =सिक्थक-  
(मोम इति नमा.)। m) =मधुदृश्यतिक्ता- (तु. केशवः)। n) विप.। वस. वा उस. वा। o) पाठः? (तु. सप्र-  
आपश्रौ २०,१०,५)।

मध्वा(धु-आ)हुति- -तिभिः आगृ ३, ३, २.  
 मध्व(धु-ऋ)च्- -ध्वचः बाध २८, १३; शोध १०५; वौध २, ८, ५.  
 मध्वो(धु-ओ)दन- -नम् कौट १, १९, ६.  
 २मधु<sup>b</sup>-(>माध्व्य- पा.) पाग ४, १, १०५.  
 १मधु-क- १मधु- द्र.  
 २मधुक<sup>c</sup>- -कः बाधुश्रौ ३, ४१ : २६; वृदे १, २४.  
 १मधु-कर- प्रसृ. १मधु-मत्- १मधु- द्र.  
 २मधुमत्<sup>d</sup>-(>माधुमत्- पा.) पाग ४, २, १३३; ३, ९३.  
 माधुमत्क-पा ४, २, १३४.  
 १मधुमत्स्य<sup>e</sup> प्रसृ. १मधु- द्र.  
 मधुस<sup>f</sup>- पाठ २, ११६; -धुः आमिगृ ३, २, १ : २; अप ४०, ६, १४; ४८, ७६१.  
 मधु-संयुक्त- प्रसृ. १मधु- द्र.  
 मधूक (वप्रा.)<sup>g</sup> - पाठमो २, २, २९; -काः शांग ५, १०, १६; -कानि कौट १, ८, ९; शांग १, १२, ९.  
 माधूक<sup>h</sup> -कम् विध २२, ८३.  
 मधूक-घृत-मण्डा (ण्ड-आभ >) भा<sup>i</sup> -भाः अप ६३, ४, ८.  
 मधूक्त- प्रसृ. १मधु- द्र.  
 मधूलक<sup>j</sup> -कम् अप्रा ३, ४, ११.

मध्य, ध्या<sup>k</sup>- पाठमो २, ३, ४; पाग २, ४, ३१; ४, १, ४<sup>l</sup>; १२६<sup>l</sup>; पागवा ४, २, १३८; -ध्यः आपश्रौ ३, ८, ९<sup>k</sup>; -ध्यम् ऋश्रौ ४, १२, २<sup>l</sup>; ७, २, १७××; शांश्रौ; आमिगृ २, ३, ५ : २२<sup>l</sup>; या ६, ३<sup>l</sup>; -ध्यस्य निसू १, ११ : २५<sup>m</sup>; -ऋध्या आपश्रौ १४, १६, १; बाधुश्रौ ३, ४ : १२; हिश्रौ १५, ५, १; आपमं; या ४, ११४<sup>l</sup>; -ध्याः कौसू १५, १७; अप्राय २, १; अप ६८, १, ४; माशि २, ३; -ध्यात् शांश्रौ ४, २१, १२; काश्रौ १, ९, ६××; आपश्रौ; -ध्यानि आपश्रौ ८, १३, ३; १४, ६, ११; वौश्रौ; -ध्याय वाश्रौ २, १, ५, १३; -ध्ये आश्रौ ५, २०, ६××; शांश्रौ; आपश्रौ ७, ३, ४<sup>n</sup>; २१, २०, ३<sup>o</sup>; वाश्रौ ३, २, ५, ४३<sup>o</sup>; हिश्रौ १६, ६, ४१<sup>o</sup>; २२, ६, २५<sup>o</sup>; कौट ३, ४, ५<sup>o</sup>; या २, १६<sup>o</sup>; ४, ११××; -ध्येऽध्ये काश्रौ २४, ५, १८; -ध्येन आपश्रौ १४, ६, १०; वौश्रौ; जैश्रौका ९१<sup>l</sup>; -ध्येषु कौसू १५, १७; वृदे ३, ११६; -ध्येः आपश्रौ २, ४, ५; भाश्रौ २, ४, ५; हिश्रौ १, ७, ८.  
 ऋमाध्य<sup>p</sup> -ध्यम् वाश्रौ १, ४,

४, ४१.  
 मध्य- -ध्ये पा ६, ४, १२०.  
 मध्य-ग, गा<sup>q</sup>- -गः शैशि ५८; भाशि १५; -गम् भाशि ६५; -गा काश्रु ७, ३८.  
 मध्य-गत- -तानि ऋप्रा ११, २५.  
 मध्य-चर- -रः निसू ५, ८ : ८.  
 मध्य-चारिन्- -रिणः अप ५२, ६, २.  
 मध्य-जिह्व<sup>r</sup>- -ह्रम शौच १, २१.  
 मध्य-तल<sup>s</sup>- -लम् वैगृ १, ५ : ६.  
 मध्य-तस्(ः) शांश्रौ १४, २७, ८; १५, ८, २; आपश्रौ; मध्यतःऽ मध्यतः माश्रौ ५, २, ९, ५.  
 मध्यतः-कारिन्<sup>t</sup>- -रिणः वाश्रौ ३, २, १, १२; ४, ५, ७; वैश्रौ; -रिणाम् आपश्रौ १२, २३, ४; माश्रौ; -रिभ्यः माश्रौ ५, २, १; ११; ६, २, ५, २७; वाश्रौ.  
 मध्यतः-कारि-चमस- -सान् माश्रौ २, ४, १, १.  
 मध्य-देश- -शः जैगृ २, ९ : १९; -शम् वौश्रौ २१, ९, ९; -शयोः वौश्रु २ : १८; -शे आपश्रौ १, २१, ६; २, ७, ३××; -शेन द्राश्रौ ५, २, १३; लाश्रौ २, ६, ७.  
 मध्यदेशा( श-अ )मदेश- -शयोः कप्र १, ३, १२.  
 मध्य-निम्न- -म्नम् वैश्रौ १, ३ :

a) पूष. = मधुशब्दवती- । b) व्यप. ( तु. पागम. ) । c) = ऋषि-विशेष- । d) = देश-विशेष- ।

e) वैप १ द्र. । f) नाप. ( वृक्ष-विशेष-, तदीय-पुष्प- ) । व्यु. ? < √मह इति अभा. प्रसृ., < १मधु- इति MW. ।

g) = मधुमक्षिका- । h) नाप. ( मद्य-विशेष- ) । तस्यविकारीयः अण् प्र. । i) द्रस. > वस. । j) तु. पागम. ।

k) पध्य इति पाठः ? यनि. शोधः ( तु. प्रकरणम् ) । l) पाभे. वैप १, ८७१ ० द्र. । m) पध्यमस्य इति मूको. ।

n) मध्ये संनतम् इत्यस्य स्थाने सपा. काश्रौ ६, १, २७ मध्यसंगृहीतम् इति पाभे. । o) पाभे. पृ ३२८ ४ द्र. ।

p) पध्यः इति पाठः ? यनि. शोधः ( तु. तै २, ४, ११, ५ आपश्रौ १९, २७, १५ ) । q) येषां मध्ये विप्रवसन्ति, ये

सौमनसो बहु > येषाम् अध्येति प्रवसन्, येषु सौमनसो बहुः इति शोधः ( तु. सपा. मा ३, ४२ प्रसृ. शांग ३,

७, २ ) । r) वा. क्वि. । s) उप. < √गम् । t) अत्. । u) क्स. ( तु. ०. ) । v) नाप. ( क्विक्-

चतुष्टय- ) । उत्स. ।

३; ७; १०.

मध्यं-दिन<sup>c</sup>- पाठ ४, १, ८६; २, १३८<sup>b</sup>; -नः आश्रौ<sup>e</sup> ७, ५, १९××; शांश्रौ ११, १५, ५<sup>e</sup>××; वौश्रौ १५, ५७: १३<sup>d</sup>; लाश्रौ ८.५, २३<sup>d</sup>; अत्र ९, ६(५)<sup>f</sup>; अप्रा ३, ४, १<sup>g</sup>; -नम् मय १, १२: ७<sup>f</sup>; अप ४८, १४१<sup>d</sup>; अप्रा ३, ४, १<sup>f</sup>; -नस्य कौसू २२, ३<sup>f</sup>; -ना<sup>f</sup> पाठ ३, ४, ८<sup>f</sup>; -नाः आश्रौ ८, ५, ७; शांश्रौ १२, ३, ३; -नात् शांश्रौ ८, १, १; वौश्रौ २४, २०: ५; ६; भाग २, ३१: ४; अप ४२, १, ५; -नाय शांश्रौ ८, १, १; -ने शांश्रौ ३, १५, ५××; काश्रौ, -नेषु आश्रौ ८, ८, १<sup>g</sup>; शांश्रौ; -नौ आश्रौ ९, ७, २.

माध्यंदिन, ना<sup>b</sup>- पा ४, १, ८६; पावा ४, ३, ६०; -नः शांश्रौ १४, २३, २××; वौश्रौ; -नम् शांश्रौ ८, १४, ३××; काश्रौ; -नस्य ऋशाश्रौ ५, ४, ३; ५, १५; शांश्रौ; वैश्रौ १६, ५: १<sup>f</sup>; -नाः वौश्रौप्र ४६: ३<sup>f</sup>; चव्यू २: ३६<sup>k</sup>; -नात् शांश्रौ १३, ८, १; काश्रौ; निसू ८.७: २३<sup>l</sup>; -नानाम् शुभा ८, ३५<sup>k</sup>; -नाय शांश्रौ ७, १४, १२; आपश्रौ; -नायाम् लुसू ३, १०: २२; -ने आश्रौ ५, ३, १३××; शांश्रौ;

अप्राय ६, ४<sup>m</sup>; -नेन आश्रौ. ६, ७, ८; शांश्रौ; -नेषु आश्रौ ९, २, १६; शांश्रौ १२, ३, १.

माध्यंदिनी- न्यः

आश्रौ ५, ५, १९.

माध्यंदिन-काल- ले

आपश्रौ २१, २४, ८.

माध्यंदिन-पवमान-वत्

वैश्रौ १६, १२: १८.

माध्यंदिन-युग<sup>n</sup>- नाम्

पाशि ८.

माध्यंदिन-वत् काश्रौ

१०, ५, ५; आपश्रौ.

माध्यंदिन-विरोधिन्-

-धी याशि १, ८६.

माध्यंदिन-सवन- -नम्

वौश्रौ २५, २२: २.

माध्यंदिनसवन-भाज्-

-भाजः वाघुश्रौ ४, ७६: ३.

माध्यंदिनसवन-शस्त्र-

-स्त्रम् वैश्रौ १६, ९: ३.

माध्यंदिना(न-अ)न्त-

-न्तान् निसू ५, ६: २.

माध्यंदिनान्ती(य&gt;)

या- -याः निसू ६, २: १४.

माध्यंदिना(न-अ)न्त्य<sup>o</sup>-

-न्यम् लुसू ३, १०: ४४; ११:

४; निसू; -न्त्यानि लुसू ३,

१०: २७××; निसू.

माध्यंदिना(न-आ)र्भव-

-वौ वौश्रौ १८, २३: ५; ९; १३.

माध्यंदिनीय, या- -यः

वौश्रौ २५, २३: ६; माश्रौ २,

३, २, ३; -यम् माश्रौ २, ३, १,

१९; ४, ३, २२; निसू ६, १०<sup>o</sup>:

८; -या निसू ६, २: २६; -याः

वौश्रौ १८, २: १२; २५, २१:

१; २६, ३०: ३; ४; वाघुश्रौ;

-यान् शांश्रौ १४, २, १८;

आपश्रौ; -यानाम् याशि २,

४०<sup>k</sup>; -याम् निसू ६, २: ५;

-ये आपश्रौ १४, १९, ११;

वौश्रौ; शुभ १, १<sup>p</sup>; -येषु वौश्रौ१८, ३७: १५<sup>q</sup>; -वैः काश्रौ<sup>o</sup>१४, २, २६; १५, ४, ४०<sup>r</sup>; काठश्रौ

१४९; वौश्रौ १८, ३४: १;

वाघुश्रौ ३, ६१: १०.

माध्यंदिनीया( या-आ )

र्भवी(य&gt;)या- -ये निसू ६,

२: २९.

मध्यंदिन-च्छन्दस्- -न्दः निसू

७, ५: २७<sup>s</sup>.

मध्यंदिना(न-अ)पराह- -हयोः

लाश्रौ १०, २०, ४.

मध्यंदिनीय, या- पा ४, २, १३८;

-या लाश्रौ ६, ९, १५.

मध्य-पथ- -थम् अप ५३, २, ५.

मध्य-पूर्वा(र्व-अ)पर- तत्स(ः) वैश्र ५,

३: ११.

मध्य-पूर्वा(र्व-अ)पर-यमा(न-अ)गिन-

निर्ऋति-सोमे( म-ई) शान-मरुत्-

-रुतः वैश्र १, ९: ३.

a) वैप १ द्र. 1

b) तु. पासि. । मध्यम- इति भाण्डा. प्रन्. ।

c) ( उपचारात् ) निष्केवल्य-

मरुत्पूर्वायशस्त्रयोः सैना- (तु. आश्रौ ७, ५, १९ शांश्रौ ११, १५, ५ भाष्यं च) ।

d) = सवन-1

e) वैप १, २४२८८ द्र. 1

f) नृ१। g) = सूक्त- ।

e) वैप १,

h) विप. (पवमान-, सवन- प्रन्.) । वैप १ द्र. । विशेषः टि. द्र. ।

i) ष्वं इति पाठः? यन्. शोधः । j) व्यप. । k) = माध्यंदिन-शाखिन्- ।

l) ष्विन्दीत् इति पाठः? यन्. शोधः । m) उगरेण भार्मवम्प इति पदेन संधिः (तु. संस्कर्तुः टि.) । n) विप. । उस. उप. कः प्र. (पावा ३,

२, ५), इत्यम् (पा ७, ३, ५३) । o) वत्त. । p) माध्यंदिनशाखीय-(यजुर्वेद-) । q) विप. &gt; नाप. (हविन्-) ।

r) तु. चौसै. । s) मा<sup>o</sup> इति संस्कर्तुः टि. ।

मध्य-भङ्ग- -ङ्गे अप १९, १, १२.  
 मध्य-भागे(ग-इ)न्द्र<sup>a</sup>- -न्द्रः वृदे २,  
 ३१.  
 मध्यम, मा<sup>b</sup>- पा ४, ३, ८; पाग  
 ४, १, ४; १२६; २, १३८<sup>c</sup>; -मः  
 शांश्रौ ७, २७, २०; आपश्रौ; वृदे  
 १, ९३<sup>d</sup>; ९४<sup>d</sup>; ९९<sup>d</sup>; २,  
 २६<sup>d</sup>; या २, ८<sup>e</sup>; ४, २६<sup>f</sup>; ७,  
 १६<sup>d</sup>xx; माशि १, ८<sup>e</sup>; पा १,  
 ४, १०५<sup>f</sup>; -मम् आश्रौ २, ७,  
 १२xx; काश्रौ; कौग १, ५, २९<sup>g</sup>;  
 विघ ५, ३०<sup>h</sup>; ४१<sup>h</sup>; ५६<sup>h</sup>; ६३<sup>h</sup>;  
 ६८<sup>h</sup>; १७६<sup>h</sup>; ३१, १०<sup>i</sup>; ऋप्रा  
 १३, ४२<sup>i</sup>; तैप्रा २३, ११<sup>i</sup>; पाशि  
 ८<sup>e</sup>; याशि १, ८<sup>e</sup>; नाशि १,  
 ५, ३<sup>e</sup>; -मया आश्रौ ४, ८, २५;  
 शांश्रौ; काश्रौ १७, ५, २<sup>k</sup>; माशि  
 १, ५<sup>i</sup>; -मयोः लाश्रौ ६, ८,  
 १२xx; ऋप्रा १४, २४; मीस्  
 ७, ३, २४; -मस्य आश्रौ २,  
 १०, २२; १०, २, ७; शांश्रौ;  
 -मस्याम् हिपि १८:२; या १२,  
 ३१<sup>k</sup>; -मा आश्रौ २, १९, २३;  
 वौश्रौ; वैघ १, ६, ५<sup>m</sup>; माशि १,  
 २-४<sup>i</sup>; ११, ९<sup>i</sup>; याशि १, ५०<sup>i</sup>;  
 कौशि ३८<sup>i</sup>; ६४<sup>i</sup>; ६६<sup>i</sup>; नाशि २,  
 ८, २<sup>i</sup>; -माः आपश्रौ १४, ६, २;  
 वौश्रौ; या ११, १८<sup>k</sup>; -मात्  
 शांश्रौ १०, ८, १६xx; काश्रौ;  
 या १०, २; २८xx; -मान् शांश्रौ  
 ७, २६, १३; काश्रौ २५, ४, ३८;  
 -मानाम् शांश्रौ १३, १०, ९;

१४, ७२, १; -मानि आश्रौ ६,  
 ४, ४; शांश्रौ; -माभ्याम् वौश्रौ  
 ६, २२ : २xx; वैश्रौ; -माम्  
 आपश्रौ १६, २४, ६; १९, २२, ५;  
 वौश्रौ; शंघ १२७<sup>n</sup>; ऋप्रा १३,  
 ४६<sup>i</sup>; ४९<sup>i</sup>; याशि १, ४९<sup>i</sup>;  
 कौशि ६१<sup>i</sup>; ६२<sup>i</sup>; नाशि १,  
 ६, २१<sup>i</sup>; -माय ऋअ २, १,  
 ७९; -मायाः लाश्रौ ६, ६,  
 ८xx; कागृ ११, २; -मायाम्  
 काश्रौ १७, ७, ६; आपश्रौ;  
 काश्रौसं २७ : १५<sup>o</sup>; ऋत २,  
 ४, २<sup>i</sup>; माशि २, १; -मासु  
 माश्रौ ६, १, ६, १८; -मे आश्रौ  
 ६, ४, ४; शांश्रौ; माशि १, ९<sup>e</sup>;  
 कौशि ३९<sup>e</sup>, नाशि<sup>e</sup> १, २, १२;  
 ४, १०; ६, ६; -मेऽमे लाश्रौ  
 ६, २, २७; -०मे शांश्रौ १२,  
 २२, १<sup>p</sup>; -मेन आश्रौ १, ५,  
 २७; ३, १०, २३; शांश्रौ; तैप्रा  
 १८, ४<sup>e</sup>; -मेसु आश्रौ ७, ११,  
 ३०; शांश्रौ; -मैः लाश्रौ ६, १२,  
 ३; ऋप्रा ५, ४२; -मौ वैश्रौ  
 १५, १३ : ६; लाश्रौ ६, ८, ७;  
 ८; ऋअ १, ८, ९; शुअ ५, ५९.  
 माध्यम<sup>q</sup>- पावा ४, २, १३८;  
 ३, ६०; -माः<sup>r</sup> आगृ ३, ४, २;  
 कौगृ २, ५, १; शांगृ ४, १०, ३;  
 ऋअ १, २, २.  
 माध्यम-क<sup>s</sup>- -कः साअ  
 १, ५२४; -काः या ५, ४; ६,  
 १५.

माध्यमिका- -क्या  
 या १२, ९; -का या २, ९; १०,  
 ४६; ११, ४२; ४३; १२, ५;  
 -काम् या ११, २७; १२, १०;  
 ३२; -कायाः या ६, २.  
 माध्यमिक<sup>t</sup>- -कः या ८,  
 १४; ११, १८<sup>u</sup>; १९<sup>u</sup>; -कम्  
 या ५, ३; -काः अप ४३, ४, २;  
 या २, २२; ७, २६; १२, ३३;  
 -कान् या १०, ९; ११, १८;  
 १२, ९; -के वृदे ३, २५.  
 माध्यमिकी- -क्या या  
 १२, ९.  
 माध्यमिनेय- पा ४, १,  
 १२६.  
 मध्यम-क-<sup>v</sup>, मिका<sup>w</sup>- (>मा-  
 ध्यमकीय-<sup>x</sup>, मिकीय- पा.)  
 पाग ४, २, १३८.  
 मध्यम-ग्राम<sup>y</sup>- -मम् नाशि १,  
 ४, ७<sup>z</sup>; -मे नाशि १, २, ८.  
 मध्यमग्राम-संभव- -वम्  
 नाशि १, ४, ११.  
 मध्यम-च्छिद्र- -द्रम् हिशु ३,  
 २१.  
 मध्यम-ज- -जम् आपश्रौ २०,  
 २३, १; हिश्रौ १४, ५, ११.  
 मध्यम-त्व- -त्वम् नाशि १, ५,  
 १०.  
 मध्यम-दक्षिणो(ण-उ)त्तर-  
 -रान् काश्रौ २, ८, १; वैताश्रौ २,  
 १३.  
 मध्यम-धर्मन्<sup>aa</sup>- -र्मा या ७, २३.

a) कस. > पस. । b) विशेषः टि. द्र. । c) पृ १९१६ b द्र. । d) = अग्नि- । e) = संगीत-स्वर- । f) पारिभा-  
 षिक-संज्ञा- । g) पाठः? (तु. भाष्यम्, सप्र. शांगृ १, ९, १४) । h) = दण्ड-विशेष- । i) = अन्तरिक्ष-लोक- ।  
 j) = वाक्-स्थान- । k) = ऋच्- । l) नाप. (उच्चारणार्थ-] वृत्ति-) । m) = वेदि-विशेष- । n) = मय्याह-  
 संघ्या- । o) मध्यम इति पाठः? यनि. शोधः । p) पामे. वैप १, २४२८ ह्र द्र. । q) वैप २ द्र. ।  
 r) = ऋषि-विशेष- । s) स्वार्थे कः प्र. । t) तत्रभवार्थे ठक् प्र. । u) तु. पागम. । v) = सामस्वर-  
 भेद- । w) पाठः? मः इति शोधः (तु. लासं.) । x) वस. ।

मध्यम-पञ्चक- केन विध ७३, ६.

मध्यम-पद्- -दानि वृत् २, २९.

मध्यम-पर्ण- -र्गम् नाशि १, १७, ६; -र्णे नाश्रौ १, ७, ७, ५; -र्गेन काश्रौसं ३२: १३; गौघ ४, ४, २५.

मध्यम-पर्वत्- -र्वणा वैश्रौ १, ३: १२; -र्वसु नाशि १, ६, ९.

मध्यम-पलाश- -शे कौत् २२, २; ७७, १८; -शेन कौत् ४८, २८; -शैः कौत् ८६, ६.

मध्यम-पिण्ड- -ण्डम् शाश्रौ ४, ५, ८; काश्रौ ४, १, २२; कौत् ८२, ५.

मध्यमपिण्ड-प्रदान- नम् अप ४४, ४, ११.

मध्यम-पुरुष- -पाय गौघ २६, १२ः.

मध्यमपुरुष-यो(ग>)गा<sup>१</sup>- -गाः या ७, २.

मध्यमपुरुषै( प-ए)ऋक्चन- -नस्य पावा ३, ४, २.

मध्यम-पूर्व- -र्वौ दौशु ७: १७.

मध्यम-भाव- -वः पावा ४, २, १३८.

मध्यम-राग- -गे नाशि १, ४, ५.

मध्यम-वर्ग<sup>१</sup>-> -र्गाव- -ये ऋत ४, ४, ८; -वैः ऋत ५, ६, १०.

मध्यम-वर्ग<sup>१</sup>- -र्गे ऋत ४, २, ३.

मध्यम-विलम्बित- -त्तयोः पावा १, १, ७०; ४, १०९.

मध्यम-साहस<sup>८</sup>- -सः शंघ २६३; -सम् शंघ ३३०; विघ ५, १०८.

मध्यम-स्य-(>नाध्यमस्य- पा.) पाग ५, १, १२४.

मध्यम-स्थान- -नै काश्रौ २४, ४, ९; -नेन काश्रौ ४, १५, १०.

मध्यम-स्थान<sup>१</sup>- -नः वृदे १, १२१; २, ७; -नाः वृदे १, १०३; -नैः वृदे ३, ७४.

मध्यम-स्युगा- -गायाः आरु २, ८, १५.

मध्यम-स्येय<sup>१</sup>- -याय<sup>८</sup> वैश्रौ १०, ४४; १७ः.

मध्यम-स्तर- -रेण काश्रौ ५, १२, ८; हिश्रौ २१, १, ९ः.

मध्यमा(म-अ)ङ्गुलि- -लैः वैश्रौ १, ३: १२; -ल्या आनिगृ २, ३, १: ९.

मध्यमा(म-अ)ङ्गुलो(ल-उ)च्छि (त>)वा- -वान् वैश्रौ १०, ४: १५.

मध्यमा(मा-अ)ङ्गुष्ट- -ष्टान्याम् आनिगृ २, ६, १: २१.

मध्यमाङ्गुष्ट-योग- -गेन शंघ ४५७: २; ४५८.

मध्यमा-त्व- -त्वम् नाशि १, ७, १२ः.

मध्यमा(म-आ)दि- -दि काश्रौ ४, १, २७.

मध्यमानां(ब्राह्म्यस्तोम-) शाश्रौ १४, ७२, १.

मध्यमा(मा-अ)नामिका- -कान्याम् शंघ ५७; ४५६.

मध्यमा(म-अ)पर- -त्योः नाश्रौ २, २, ३, २७.

मध्यमा(म-अ)ष्टका- -कायाम् आरु ३, ५, २०;

मध्यमीय- पावा ४, २, १३८; ३, ६०.

मध्यमे(म-ई)वा- -वायाम् १९, २०, १५; वैश्रौ १३, २२: ६; ७; नाश्रौ ५, १, ८, ६; हिश्रौ २२, ३, २९.

मध्यमे(म-उ)वैत्तर(>)रा- -र्या वैताश्रौ २२, १०.

मध्यमे(म,ना-उ)चन,ना- -मे वैश्रौ १९, ५: ३१; -मौ वृदे २, ३९.

मध्यमे(म-उ)त्तर- -रौ काश्रौ ८, १४, १०; वैश्रौ ९, ४: १०.

मध्यमौ(म-ओ)दन- -नस्य हिश्र २, ८, ८.

मध्य-रात्र- -त्रात् वैश्रौ २४, २०, २; ४; वैश्रु ३, १, १६; हिष १, ८, ५६६; -त्रे काश्रौ ६, ४, १०; १०, १७, ३; वैश्रौ.

मध्य-रत्नग<sup>१</sup>- -गानि निम् ५, ८: ९.

मध्य-वेदि- -द्याम् वैष १, ६, ४.

मध्य-संगृहीत,ता- -तम् काश्रौ ६, १, २७<sup>१</sup>; १७, ५, ३; २६, १, १७; -तानि काश्रौ ९, २, १४; -तान् काश्रौ २, ६, १.

मध्य-नम- -नम् काश्रव १, ५, १६; हिष १, २, १६.

मध्य-संपद्- -पद्ः अप ५२, १, ७.

मध्य-स्य- पाग ५, १, १२४<sup>१</sup>; -स्यम् विघ ३, ३९; मीत् ४, ४, ३; -स्याः काश्रौ ४, ९८: २०; -स्यानि कैश्रौका ६२.

नाध्यस्य- पा ५, १, १२४.

मध्य-स्थान,ना<sup>१</sup>- -नः निम् १०, ३,

a) वत्. । b) क्त. । c) =दृष्ट-विशेष- । d) वैष १ द्र. । e) पामे. वैष १, २४२९ इ द्र. ।

f) 'नत्य-' इति लासं. । g) उवा. काश्रव १, ३२, १४ अर्घटात्रात् इति पामे. । h) पामे. इ १९१५ II द्र. ।

i) तु. पागम. ।



८; -ना या ७, २३; -नाः या १०, १; ११, १३; २२; १२, ४१; सात्र १, ४४५.  
 मध्यस्थानो(न-ऊ)र्ध्व-शब्द<sup>०</sup>-  
 -ब्दः या १४, २१<sup>२</sup>.  
 मध्या(ध्य-अ)नेय-दक्षिणै(रा-ऐ) शान्त्यो (न्य-उ)त्तर-पूर्व-पश्चिम-  
 नैर्ऋत-वायव्या(व्य-आ)श्रित-  
 -त्ताः वैगृ ४, १३ : ५.  
 मध्या(ध्य-अ)ग्रो(अ-उ) पनत-  
 -त्तम् काश्रौ ६, १, ८.  
 मध्या(ध्य-अ)धिदेवन<sup>०</sup>-ने वाश्रौ १, ४, ४, ११.  
 मध्या(ध्य-अ)न्त-न्ताभ्याम् कौशि ५०.  
 मध्यान्त-स्थावर-राणाम् अप ५२, १०, ५.  
 मध्या-वर्ष<sup>०</sup>-र्षम् शाश्रौ २, ५, ४; -र्षे कौगृ ३, १५, ४<sup>०</sup>; शाश्रु ३, १३, १; ५, १०, ६; पागृ ३, ३, १३.  
 माध्यावर्ष<sup>०</sup>-र्षम् आगृ २, ५, ९; हिगृ २, १३, ३.  
 मध्या(ध्य-अ)ह-हार् अप १, १९, १; -ह्रात् वैध ३, १४, ९; -ह्ने वैश्रौ १२, १३ : ७; आगिगृ २, ६, ८ : ४५; कागृ ४४ : १; वैगृ १, ३ : १८; अप १, २१, २; १८<sup>३</sup>, १५, १; ४१, ६, २; ७०<sup>३</sup>, ११, २९; शंघ ९८<sup>१</sup>; वैध ३, ५, ३; विध ६३, ९; ६८, ११;

७१, २१; वैध २, १३, १; आज्यो १, ८.  
 मध्याह्ना(ह-अ)पराह्ण-ह्योः अप ९, २, ८.  
 मध्ये√कृ पा १, ४, ७६.  
 मध्ये-गुरु-पा ६, ३, ११; पाग २, २, ३७<sup>०</sup>.  
 मध्ये-छन्दस्<sup>०</sup>-न्दसः पागृ ३, ३, ५<sup>१</sup>.  
 मध्ये-ज्योतिस्<sup>१</sup> -तिः निसू १, २ : १४; १६; ऋअ २, ८, १०; अअ १०, १०; ११, ४, ५; पिं ३, ५३.  
 मध्ये-निघन<sup>१</sup> -नम् लाश्रौ ६, ४, ५; -नानि निसू ५, ७ : २१; ९, ३ : २७; २८; -नेन लाश्रौ ७, ८, १३; -नेन निसू १, १३ : ७; ८; -नेषु दाश्रौ १०, १, ६; लाश्रौ ३, ९, ७.  
 मध्ये-पृष्ठय<sup>१</sup>-ष्ठयाः शाश्रौ १३, २१, ४; आपश्रौ २३, ९, ४; -ष्ठयान् शाश्रौ १३, २१, ११; -ष्ठयौ शाश्रौ १३, २१, ११.  
 मध्ये-वि(ल>)ला<sup>१</sup>-लाम् वैश्रौ १९, ६ : ११२.  
 मध्ये-शरीर-रम् जैगृ २, ४ : ६.  
 मध्यो(ध्य-उ)दात्त-त्तम् कौशि ३५; नाशि २, ७, ५; -त्ते शुप्रा १, १४९.  
 मध्यो(ध्य-उ)द्वाय<sup>१</sup>-यम् निसू १०, ३ : ३६.

मध्यम,मा-प्रमृ. मध्य-द्र.  
 मध्यमैक्येग्रहानमसचनयति वाश्रौ ३, २, ५, ५६.  
 मध्यागृ<sup>०</sup>-युवः ऋग्रा ९, १६<sup>१</sup>.  
 मध्वगाहे<sup>१</sup> वीगृ १, ४, ४.  
 मध्वगाहे<sup>१</sup> भागृ १, १७ : १३.  
 √मन् (वधा.)<sup>०</sup> पाधा. दिवा. आत्म. ज्ञाने; तना. आत्म. अवबोधने, मनामहे आपश्रौ ९, ३, २०; १०, १७, ९; १७, ७, ४; वीश्रौ; या ६, २५<sup>१</sup>; मनै या ९, २८<sup>१</sup>.  
 मन्यते शाश्रौ १६, ३४, ४<sup>१</sup>; आपश्रौ; मन्येते वृदे ३, १००; मन्यन्ते वीश्रौ १०, ५४ : २१××; वाधूश्रौ; या ४, १६; ७, १७××; मन्यन्ति या १०, २९; मन्यसे शाश्रौ १२, २२; १<sup>०</sup><sup>१</sup>; वाधूश्रौ ३, ४० : ७; मन्ये आश्रौ २, १४, ३५<sup>१</sup>××; शाश्रौ; पाग १, ४, ५७<sup>०</sup>; मन्यामहे आपश्रौ १९, २२, १५××; वाधूश्रौ; मन्यताम् माश्रौ १, २, ६, १८<sup>१</sup>; या ९, १३; अमन्यत निसू २, १२ : ११; वाध ५, ८<sup>१</sup>; अमन्यन्त वीश्रौ १८, २९ : २०; वाधूश्रौ ३, १७ : ९; मन्यथाः या ३, २०<sup>१</sup>; मन्येत आश्रौ ६, ८, ८; ८, १३, ४; शाश्रौ; वाध२, १०<sup>१</sup>; हिध१, १, १८<sup>१</sup>; या २, ४<sup>१</sup>; मन्येत् विध ३०, ४७<sup>१</sup>; मन्येरन् आश्रौ

a) विप. (आदित्य-)। कस. > वस । b) वैप १ द्र. । c) अस. उप. = वर्षा- । d) मा<sup>०</sup> इति

पाठः? यनि. शोषः ( तु. मूको. शाश्रु. पागृ. च; वैतु. भाष्यम् अन्यथादर्शि ) । e) = कर्मन्- । तत्रभवीयः

प्र. । f) = ह्ने (स१) । g) मा<sup>०</sup> इति पाठः? यनि. शोषः ( तु. वीध. ) । h) तु. पागम. ।

२) वस. । j) = छन्दो-विशेष- । k) = साम-विशेष- । l) पामे. पृ १९१० p द्र. । m) या ३,

७; ४, ४; १०, २९ पा १, ४, १०६; २, ३, १७; ६, ४, ३७; ७, ३, ७८ परामृष्टः द्र. । n) पामे. वैप १, २४११ f द्र. ।

o) विमक्तिप्रतिरूपकम् अन्व. । p) पामे. वैप २, ३३. अनुमन्यताम् तत्रा ३, ७, ५, २ टि. द्र. । q) पामे. वैप २,

३३. मन्येत संत्रा ३ टि. द्र. ।

७, ११, २१, २२, ८, २५; वाधूश्रौः  
 नन्वेयाः श्राश्रौ १०, २, १३;  
 लाश्रौ ३, १०, १५.  
 ननुते वौघ २, ६, ३३<sup>१</sup>; ऋमन्वते  
 आपश्रौ ३, १२, १; वौश्रौः  
 वृदे १, २४६; श्रौशि ६४६;  
 ऋमन्वे आपश्रौ २०, २३, ४;  
 वौश्रौः; वैताश्रौ १५, १३<sup>२</sup>;  
 ऋमन्वहे अप ४८, १२; लल ४,  
 २४<sup>३</sup>; २९; निघ ३, १९;  
 ऋमन्वत आश्रौ ४, ६, ३; शाश्रौ  
 ५, ९, १६; १५, ३, ७; नाशि २, १,  
 ८<sup>०</sup>; मनुवान् वा ९, १३<sup>४</sup>क<sup>०</sup>;  
 ऋमन्वै आपश्रौ २४, १३, ३;  
 वौश्रौ ३, २८ : ११; लमन्वत  
 आश्रौ ९, ८, ३<sup>१</sup>; वौघ ३, ८, ९;  
 ऋवा २, ६; ४, २५<sup>५</sup>.  
 मेने ऋवौश्रौ १८, ४४ : ३; ४७ :  
 १; च्प्र २, ८, २४; वाघ;  
 मेनिरे शाश्रौ १५, २६, १<sup>३</sup>;  
 मनिष्ये शाश्रौ १, ५, ९<sup>१</sup>; मंसते  
 ऋवा १४, २६; २७; ऋमलीच  
 आश्रौ<sup>०</sup> १, २, १; ४, ९;  
 आपश्रौ; मंसीच वा ३, ८<sup>१</sup>;  
 ऋमंसोमहि ऋप्रा १६, ३२;  
 अमंसि निवृ ३, ९ : ४४; ऋमंसत  
 वैताश्रौ ३२, १७; वा १, ४; १३,  
 ४<sup>६</sup>; अमंसि वाधूश्रौ ४, २२ :  
 ४; लमनि<sup>१</sup> अप ४८, ५१<sup>१</sup>.  
 मन्वति जुद्ध ३, २ : ३२;  
 मानवन्ति वा ३, २१.  
 रमत, ता- पा ६, ३, ४३; पाग

२, १, ५९; -तः वौश्रौ १६,  
 २७ : २४; अप ४७, १, १४;  
 २, १; शव २७२; वृदे १<sup>१</sup> ८४;  
 -तन् आपश्रौ ३, १२, १<sup>१</sup>;  
 २१, १२, ३६; वौश्रौ २२, १ :  
 ३; आमिग; -ता शंघ १००;  
 वृदे २, १४३; श्रौशि ५४;  
 -ताः ऋ ३, ८, २; अप ४७  
 २, २; ३; वौघ १, ५, ९४; २,  
 २, ४७<sup>१</sup>; श्रौशि १०; पाशि ३;  
 याशि २, ३; दंवि १, १०;  
 -तानि वा १०, २६; १४, १४<sup>२</sup>;  
 १९<sup>३</sup>; -ते वृदे ३, १२२.  
 मन्-वचस्<sup>४</sup> -> मातवचस्-  
 आश्रौ १२, ११, २; आपश्रौ  
 २४, ७, ६; वौश्रौप्र १८ : २;  
 हिश्रौ २१, ३, १०<sup>३</sup>; वैघ ४, ३, २.  
 मन्वचो-वत् आपश्रौ २४, ७,  
 ६; ७; वौश्रौप्र १८ : २; हिश्रौ  
 २१, ३, १०<sup>३</sup>; वैघ ४, ३, २<sup>१</sup>.  
 मता (त-त्र) क्ष<sup>१</sup> - क्षः वौश्रौ  
 १२, १५ : १८.  
 मन्व- पा ४, ४, ९७.  
 मन्ति- पा ३, ३, ९६; -ऋतयः वौश्रौ  
 १८, ५ : ११; वैताश्रौ; अप  
 ४८, ८५<sup>१</sup>; निघ ३, १५<sup>१</sup>;  
 -तिः आश्रौ ६, ३, १<sup>१</sup>; शाश्रौ  
 २, ५, २<sup>१</sup>; आपश्रौ; वा ६,  
 १२; ११, १५<sup>१</sup>; पा ४, ४, ६०;  
 -ऋतिमिः वा ४, १९<sup>१</sup>xx;  
 ऋप्रा ७, २७; -तिम् ऋआश्रौ  
 २, १५, २; ४, ६, ३; शाश्रौ;

विघ ७१, ४८; वृदे ३, १४४;  
 वा २, ११; ११, १६; -ती  
 वौश्रौ ५, १५ : १४<sup>१</sup>; -तीः  
 कञ्चु ७, ६; -ऋतीनाम् आश्रौ  
 ६, ७, ६; शाश्रौ; वा १४,  
 १२<sup>१</sup>; -तौ वा ३, १९; ७,  
 २२<sup>१</sup>xx, -त्या आश्रौ ४, ८,  
 १७<sup>१</sup>xx; वाघ १०, १९.  
 मन्ति-पूर्वम् - ईम् वौघ २, १,  
 ६; -ई गौघ १२, ४६.  
 मन्ति-प्रवृत्त - ते वौघ ४, २, १४.  
 मन्ति-वृद्धि-पूजा (जा-अ)र्ध-  
 -धैम्यः पा ३, २, १८८.  
 मन्ति-मन् - मन् वैताश्रौ ३७,  
 २<sup>१</sup>; -नात् अप ७०, ११, ३.  
 मन्ति-मोहिन् - तः श्रौशि ४०.  
 ऋमन्ति [ऋ]मन्ति-वृद्धि<sup>०</sup> - वृद्धिः  
 आश्रौ ६, १२, ११; शाश्रौ;  
 -विदे शुभ्रा ३, ९७.  
 मन्त्वा ऋ २, १०, ५६; वृदे.  
 ऋमन्त<sup>०</sup> - ऋना लाश्रौ ३, ७, ५;  
 वौश्रौ १८, ५ : १२; वैघ २, १०,  
 ५; -नात् वा ७, १२; १२,  
 ३३; -नानि वा ८, ६; १०,  
 ४२; -नात् वा ११, ४२.  
 मन्नीच - ईः वा १०, ५.  
 ऋमन्त - पाटमो २, १, ३२१; पा  
 १, ४, ५७<sup>१</sup>; ७, २, १८; पाग  
 ३, १, २७; ५, ४, ३८; १०७;  
 -तः ऋआश्रौ १, ४, ९; २, ५,  
 १४; ७, ८<sup>१</sup>; १०, १६<sup>१</sup>xx; ऋशाश्रौ  
 २, ७, ५<sup>१</sup>xx; १६, ४, ६<sup>१</sup>; आश्रौ

a) पामे. वैप १, २४३१ f द्र. । b) पामे. वैप १, २४३१ g द्र. । c) वैप १, २४३१ i द्र. ।  
 d) पामे. वैप १, २४३२ a द्र. । e) पामे. वैप १, २४३२ g द्र. । f) वा. भावने वृत्तिः । g) पामे.  
 पृ ३३९ e द्र. । h) व्यय. । दस. । i) प्लसव इति पाठः ? वलि. शोषः (तु. आपश्रौ. प्रवृत्.) । j) वस. टप.  
 = १ अक्ष- । k) मेधादिनामन्. । l) पामे. वैप १, २४३२ k द्र. । m) वस. । n) शुभ्रा. पाठः ।  
 o) वैप १ द्र. । p) नियमार्थे अन्व. इति पागम. । q) तु. आन. । वनः इति BL ! । r) वजा. ना २३, २५  
 प्रवृ. सुखम् इति पामे. ।

२, १, १८xx; ७, ४, ३५<sup>a</sup>;  
 ऋआपश्रौ १, १०, ५xx; १०,  
 १८, ३<sup>a</sup>; १६, ३२; ३<sup>b</sup>; १७,  
 २३, ११<sup>a</sup>; १८, १७, ७<sup>c</sup>; काश्रौसं;  
 वीश्रौ १२, १२: ९<sup>c</sup>; १३:  
 २४<sup>c</sup>; माश्रौ २, १, ३, ११<sup>a</sup>;  
 ऋवाश्रौ २, २, ५, ७<sup>a</sup>; ३, ३,  
 ३, ५<sup>c</sup>; वैश्रौ १२, ७: ११<sup>a</sup>;  
 हिश्रौ १०, २, ६५<sup>a</sup>; १३, ६,  
 ८<sup>c</sup>; ९<sup>c</sup>; २२, १, १५<sup>d</sup>; कौश्र  
 ३, ५, ४<sup>c</sup>; आगिनश्र १, १, ४:  
 ३७<sup>a</sup>; काश्रु ४१, १८<sup>a</sup>; वीश्र  
 १, ५, २९<sup>a</sup>; माश्रु १, २२,  
 ११<sup>a</sup>; वाश्रु ५, ३०<sup>a</sup>; वैश्रु ३,  
 ८: ६<sup>a</sup>; हिश्रु १, ८, ४<sup>a</sup>;  
 जैश्रु १, १२: ४२<sup>a</sup>; पाशि ६<sup>a</sup>;  
 माशि २, १२; याशि १, २३;  
 भाशि ४४; नाशि १, ६, १२;  
 आश्रु ७, १८; -नसः ऋआश्रौ  
 १, ७, २; २, ११, ८<sup>a</sup>; शाश्रौ;  
 आपश्रौ १०, ११; ४<sup>a</sup>; माश्रौ  
 २, १, २, २०<sup>a</sup>; हिश्रौ १०, २,  
 १४<sup>a</sup>; या २, २५xx; पा ६,  
 ३, ४; -ऋनसः वीश्रौ ४, १०:  
 २४; वैताश्रौ; -नसा आश्रौ २,  
 ३, १९xx; शाश्रौ १, ११, १<sup>a</sup>xx;  
 ३, १९, ३<sup>a</sup>; काश्रौ; आपश्रौ  
 ३, ११, २<sup>a</sup>; ६, २७, ३<sup>a</sup>; ५<sup>a</sup>;  
 ११, १८, ७<sup>a</sup>; १६, १६, ४<sup>a</sup>;  
 वीश्रौ १, २१: १६<sup>a</sup>; १८<sup>a</sup>; ६,  
 ५: २५<sup>a</sup>; २१, ९: २२<sup>a</sup>; २४,

२: ९<sup>a</sup>; माश्रौ १०, ७, ३<sup>a</sup>;  
 वाश्रुश्रौ ४, ७१: ४<sup>a</sup>; वैश्रौ १२,  
 १०: १<sup>a</sup>; १४, १७: १<sup>a</sup>; १८,  
 १४: १२<sup>a</sup>; हिश्रौ २, ६, २<sup>a</sup>;  
 ऋआपमं १, ४, १६<sup>a</sup>; ५,  
 १८<sup>a</sup>; २, २२, १३<sup>a</sup>; आगिश्र  
 १, १, २: ७<sup>a</sup>; ५, ४:  
 १२<sup>a</sup>; ६, ३: ५६<sup>a</sup>; २, ७, २:  
 २४<sup>a</sup>; वीश्रु २, ६, २९<sup>a</sup>; भाश्रु  
 २, ३०: १८<sup>a</sup>; हिश्रु १, ३, ६<sup>a</sup>;  
 २६, १३<sup>a</sup>; ऋश्रु ५, १३<sup>a</sup>;  
 २७, ४<sup>a</sup>; या २, ४<sup>a</sup>, ३, ३-५xx;  
 १४, २२<sup>a</sup>; -नसाम् या १, ९;  
 १३ १३; -नसि आपश्रौ ११,  
 १, ६<sup>a</sup>; वीश्रौ; या ११, १९;  
 -ऋनसे काश्रौ २, १, १८; आपश्रौ;  
 -नासि वाश्रुश्रौ ४, ६७: २; ३;  
 ६; आपमं १, ३, १४<sup>a</sup>; काश्रु.  
 मानस<sup>o</sup> पा ५, ४, ३८;  
 -सः वैताश्रौ ३३, २७<sup>a</sup>; अप्राय  
 ६, ३<sup>a</sup>; वाघ २६, ९; विध ५५,  
 १९; या १४, ९; -सम् शाश्रौ  
 १०, १२, ३; आपश्रौ; -सस्य  
 वीश्रौ १६, ७: १२; जैश्रौ १५: १४;  
 -सात् निसू ५, १०: ७; ९, ७:  
 ११; वीध १, ११, ३८; -सान्  
 श्रुप ४७, १, ५; -से निसू १०,  
 ७: २१; वीध १, ११, ३९;  
 याशि १, १२; -सेन आश्रौ ८,  
 १३, ३; शाश्रौ १०, १३, २६;  
 द्राश्रौ ९, ४, ४; लाश्रौ ३, ८, १;

निसू ४, ८: १८; -सेयु आश्रौ  
 ८, १३, २१.  
 मानस-ता- -तया निसू  
 ४, ६: २०.  
 मानस-वत् द्राश्रौ १५,  
 ३, १३; लश्रौ ५, ११, १३.  
 मानस-संयुक्त- -क्ता:  
 निसू ९, ७: ८.  
 मानस-स्तोत्र- -त्राय  
 वैताश्रौ ३३, २५.  
 मानसीन<sup>p</sup>- -नः वीश्रौ १९,  
 ७: ६; -नेन वाश्रुश्रौ ३, ४२:  
 १०.  
 मन-आवर्तन- -नम् ऋश्रु २,  
 १०, ५८; वृदे ७, ९०.  
 मनः-पूत- -तम् विध ९६, १७.  
 मनः-प्रियत्तम- -मानि आश्रु  
 ७, १.  
 मनश्-चक्षुस्- -क्षुषोः आपश्रु  
 ३, २१.  
 ऋमनश्-चिन्- -चित् अप ४८,  
 ८५; निघ ३, १५; -चिते वीश्रौ  
 १०, २३: १५; वैश्रौ १८, १४:  
 ३३.  
 मनश्-शुद्धि- -द्धिः वीध १, ५,  
 ३.  
 ऋमनः-ऋ- -शुभ- -सा:  
 आगिश्रु ३, ४, २: १६; वीषि ३,  
 २, ३; गौषि १, २, ४१.  
 मनस-पति- -तिः शुश्रु १,  
 १४०.

- a) पाभे. वैप १, २४३४ f द्र. । b) सपा. मे २, १३, ३ पृथिवीम् इति पाभे. । c) पाभे. वैप १, २४३४ g द्र. । d) मनः इति पाठः ? नमः इति शोधः (तु. तै ३, ३, ९, १) । e) सपा. शांश्रु ३, ९, १ अंशः इति पाभे. । f) पाभे. वैप १, २४३४ d द्र. । g) सपा. मनः <> मनांसि इति पाभे. । h) पाभे. वैप २, ३ खं. मनुसा तैत्रा २, ४, ६, १२ टि. द्र. । i) पाभे. वैप १, २४३५ k द्र. । j) उत्तरेण संधिरार्यः । k) पाभे. वैप १, २४३६ n द्र. । l) पाभे. वैप १, २४३६ g द्र. । m) पाभे. वैप १, १९०८ f द्र. । n) पाभे. वैप १, २२६७ r द्र. । o) विप. (स्तोत्र-; प्रह-; अह-; प्रहृ.) । वैप १ द्र. । p) तस्येदमीयः खन् प्र. उखं. (पा ४, ३, १) । q) वैप १ द्र. । r) मेघादि-नामन्- । s) वीषि. पाठः । t) = ऋषि-विशेष- ।

ननसि√हृ पा १,४,७५.  
 ननस्-पाप<sup>५</sup> - ०५ शौच २,७९.  
 √मनस्व पा ३,१,२७.  
 मनस्वमान- नैन वा ३,७.  
 ङमन(स्व >)स्वा<sup>५</sup> - स्वास्  
 आप्तं २,२१,३३; भाग २,२६;  
 १३; हिण् १,१५,६०.  
 मनस्-वत् - वते दौश्रौ १३,१३;  
 ६; - ङवाद् वैतार्थौ ३३, १२;  
 वा १०,१०.

मनस्वती- स्ती<sup>५</sup> दौश्रौ २७,  
 १०:३; २८, ११:१०; २२,  
 १२:२; आमिण् २, ६, ५:३;  
 दौश्र २,९,८; ४,६-७, १; भाग  
 ३,१५:१३; - स्ती<sup>६</sup> माश्रौ १,  
 १,२,४०; दौश्रौ १,२, ३, ३३;  
 ७,४,५५; दौश्रौ ४,१०, १:३;  
 - स्तीभिः<sup>६</sup> आपश्रौ १, १०, ५;  
 भाश्रौ १, ९, १३; हिश्रौ २, ७,  
 ५३; - स्तीभ्याम्<sup>६</sup> आपश्रौ १६,  
 ३, १; दौश्रौ १८,१:२९; हिश्रौ  
 ११,१,२५; - स्तीम् दौश्रौ<sup>५</sup> २७,  
 ९:१०; ११:३; २८,१०:५;  
 वैश्रौ<sup>५</sup> २०,११:१२; २६:१२;  
 हिश्रौ ५, ४, ८८<sup>६</sup>; आमिण्<sup>५</sup> २,  
 ७, २:२१; ३, ९,२:८; दौश्रौ  
 ४,९, १२<sup>६</sup>; वैश्र ६, १६:७<sup>६</sup>;  
 हिण् १, २६, १३<sup>६</sup>; अण २२,  
 ९, ३<sup>६</sup>; - स्त्या दौश्रौ २७, ५:  
 १२<sup>६</sup>; वैश्रौ २०,१४:६<sup>६</sup>; भाग  
 ३,२:१०<sup>६</sup>.

मनस्वती-मिन्द्राहुती-

महाव्याहृति- तीनाम् आमिण्  
 २,७,४:१७.

मनस्वती-मिन्द्राहुती-  
 व्याहृति- स्तीभिः आमिण् २,  
 ७,४:१६.

मनस्-विन्- स्वी या १०,१०.

मनस्विनी-> स्वी-त्  
 (म >)मा- स्ना: वाघुश्रौ ४,  
 ४७:१०.

मनस्वी√सू > स्वी-माव-  
 वे वा ३,७.

मनः-संयमन- नात् शंघ ३७२.

मनः-सनाधाना(न-त्र)र्थ- र्थम्  
 दौष १,२,२७.

मनः-सनेत- तानि आज्यो ७,  
 २३.

मनो-गन- तान् दौष ४,५, १.

मनो-ग्रह<sup>५</sup> - हम् हिश्रौ १६, ४,  
 १५; - हाय आपश्रौ २१, १०,  
 १; हिश्रौ १६,४, १४.

मनो-ग्रहण- ङम् अत्र २, ३०.

मनो-जव<sup>५</sup> - वेपु या १,९१.

मनो-जव<sup>५</sup> - वा: अत्र २०,  
 २,१:४; - ङवा: माश्रौ १,१,  
 २,१२<sup>५</sup>.

मनोजव-ता- ता आपघ  
 २,२३,८<sup>५</sup>; हिण् २,५,१६१.

मनो-जव<sup>५</sup> - वा<sup>५</sup> चात्र १७:  
 ११; - वै: आमिण् २,५,८:११;

दौश्र २,७,१६; हिण् २, ८, २.

मनो-जव<sup>५</sup> - वस: आपश्रौ  
 १,७, १३<sup>५</sup>; - वसन् माश्रौ ५,

२,६,१९; आमिण् २, ५, १०:  
 ८; - वसन् चात्र १६:८<sup>५</sup>;

- वा: आपश्रौ २२, २६, ११;  
 दौश्रौ ४, ३:१<sup>५</sup>; १८,९:३६;

हिश्रौ २३,४,२६; उ ३१, ९<sup>५</sup>;  
 आमिण् २, ४, ६:३५; माशि  
 ८,७<sup>५</sup>.

मनो-जात<sup>५</sup> - स्ता: आमिण्  
 १०,१७,९; दौश्रौ ६, ७:१०;

माश्रौ १०,१०, १४; वैश्रौ १२,  
 १३:३; हिश्रौ १०, २, ५७;

दौष ३, ६, १५; विष ४८, ८.

मनो-जुष्- जुष्: विष ४८,  
 ८<sup>५</sup>.

मनो-ज्ञ,ज्ञा<sup>५</sup> - पाण ५,१, १३३;  
 ६, ३, ३३; - ज्ञम् वैश्र ३, ५:  
 १०; - ज्ञान् आमिण् १, ६, १:

२; विष ९०, ७; - ज्ञाय वैश्रौ  
 ८,१४:५; - ज्ञेन हिण् १, २३,  
 २; - ज्ञेषु विष ८५,६३.

मानो-ज्ञक- पा ५,१, १३३.

मनो-ज्ञ(त्) > स्ता<sup>५</sup> - स्ता काष  
 २८०:२.

मनो-दु(ष्ट) > ष्टा- ष्टा विष  
 २२,११.

मनो(न्-ञ)हृ(ग) > गा-  
 - गान् माशि २,१४.

मनो-ने(त्र) > त्रा<sup>५</sup> - त्रान्  
 आश्रौ ४,१३,२.

मनो(न्-ञ)निधान- ने पावा  
 ७,२,१८.

मनो(न्-ञ)निरा(म) > मा<sup>५</sup> -

a) वैष १ द. । b) तात्रभविकः यन् प्र. । c) वैतु. Röht ( ZDMG ५२, ८४ ) नानस्तीम् इति शोधः? (तु. घृ ५७४ ८) । d) = आहुति-विशेष- । e) = ऋग्-विशेष- । f) = मृह-विशेष-, (उपचारत्) आहुति-विशेष- । कस. । g) वस. । h) मन्. 'वा: <> 'वसः इति पाठे. । i) 'वान् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. विष.) । j) पाठः? 'जवैः इति शोधः (तु. मै २,९,१ आमिण् प्र. च) । k) पाठे. वैष १,२४३८ १ द. । l) पाठे. वैष १,२४३९ b द. । m) पाठे. वैष १, २४३९ f द. । n) उप. < √दा [दाने] । o) तु. इतरानि-नेत्र- (वैष १) । p) विष. । उस. ।

-०मे विध १९, २४.  
 मनो-मन्थन- नम् अत्र २, ३०.  
 मनो-युज<sup>०</sup>- युक् वाधुश्री ४,  
 ३६; ३; -कंयुजः<sup>०</sup> आपश्री १०,  
 १७, ९; वीश्री ६, ७ : १०; माश्री  
 १०, १०, १४; माश्री २, १, ३, ६;  
 वैश्री १२, १३, ३; हिश्री १०, २,  
 ५७; वीध ३, ६, १५.  
 मनो-रम, मा- मा अप ५९, १,  
 ८; -मे वैगृ ४, १३ : ७; -मैः  
 अप १९<sup>२</sup>, ४, ३.  
 मनो-वश- -शन विध ७२, ६.  
 मनो-वाक्-काय-कर्मन्- -र्मभिः  
 वैध २, १५, ११.  
 मनो-वाक्-प्राण-चक्षुस्- -क्षुषाम्  
 वैश्री १६, ७ : १०.  
 मनो-वाग्-देह-भोजन- -नैः वृदे  
 ६, १४३.  
 मनो-हन्<sup>०</sup>- -हा पाठ २, ६,  
 १०; अत्र १६, ११.  
 मनो-हर, रा<sup>०</sup>- -रः अप २१, २, ५;  
 ६८, ५, २६; ७०<sup>३</sup>, ४, ५; -राणि  
 अप २१, १, ३; -रान् अप ६८,  
 ३, ४; -राम् अशां ३, २; -रे  
 अप १९<sup>२</sup>, १, ४; २०, १, ३; -रेषु  
 विध ९९, १३.  
 मनीषा<sup>०</sup>- पाग<sup>०</sup> ५, २, १३६; ६, ३,  
 १०८; पावाग ६, १, ९३;  
 -षया कंआपश्री ४, १, ८; ९;  
 १०<sup>३</sup>; वीश्री; या २, २५०<sup>३</sup>; ९,  
 १००<sup>३</sup>; -कंया आश्री २, १९,  
 २२; ३, ७, ७××; शाश्री; -पाः  
 आश्री २, १९, २४; ऋप्रा २, ५४;  
 -पाणाम् आपमं २, ११, २५<sup>३</sup>;

-पाम् या १४, १४<sup>३</sup>.  
 मनीषा-वत्- पा ५, २, १३६.  
 मनीषित- पाग ६, ३, १०८<sup>०</sup>.  
 मनीषिन्<sup>०</sup>- पा ५, २, १३६;  
 -षिणः शाश्री ६, -४, ९<sup>३</sup>;  
 आमिष्ट; या १३, ९<sup>३</sup>क<sup>३</sup>;  
 -कंषिणः ऋअ २, १०, १११;  
 वृदे ८, ३८; -षिणाम् वैगृ ५,  
 ४ : ३५<sup>३</sup>; आज्यो १४, ९<sup>३</sup>;  
 -कंषिणे अप १, ३९, २; अशां  
 ९, ३; -षिभिः कंअप १, ३८,  
 २; ५; ३९, ४; अशां; -पी  
 अप ४८, ८५<sup>३</sup>; वीध २, ६, ३०;  
 निध ३, १५<sup>३</sup>.  
 मन्तवै<sup>०</sup> या ३, ३<sup>३</sup>क<sup>३</sup>.  
 मन्तव्य- -व्यः या ३, ३; नाशि  
 २, ५, ५.  
 मन्तु<sup>०</sup>- पाठ १, ७३; पाग ३, १,  
 २७.  
 √मन्तूय पा ३, १, २७.  
 मन्तु- पाठवृ २, ९४.  
 मन्त्र<sup>०</sup>- पाठभो २, ३, ८५; पाग २,  
 १, ५९<sup>०</sup>; ६, १, २०३; -०न्त्र  
 विध १, ५३<sup>३</sup>; -न्त्रः शाश्री २,  
 ८, १८; ७, ४, १६; काश्री;  
 या १, २; ५, ४××; नाशि १,  
 १, ६<sup>३</sup>; पा ४, ४, १२५; -न्त्रम्  
 शाश्री २, २०, १८; काश्री; -न्त्रस्य  
 आपश्री ९, १३, १२; माश्री;  
 मीस् ११, ४, ३७<sup>३</sup>; -न्त्राः  
 आश्री १, १, २१; काश्री १, ३,  
 १; कंआपश्री ५, १९, ४; ८, १३,  
 ६××; वीश्री; -न्त्राणाम् आश्री  
 ३, २, १८; शाश्री; -कंन्त्रात्

आश्री ४, १३, १; आपश्री;  
 -न्त्रान् आपश्री ४, १, ३;  
 वीश्री; -न्त्राम्याम् आपश्री  
 १६, १४, ९; वीश्री; -न्त्रे  
 आश्री १, ११, १०; १२,  
 ३१; काश्री; पा २, ४, ८०;  
 ३, २, ७१; ३, ९६××;  
 आज्यो ८, ५<sup>३</sup>; -न्त्रेऽन्त्रे  
 वृदे १, २; १२; शुअ ४, १५७;  
 -न्त्रेण आश्री १, ३, २९; शाश्री;  
 -न्त्रेभ्यः हिश्री ४, १, ४४; या  
 १३, ११; -न्त्रेषु शांष्ट १, २, ५;  
 कप्र; पा ६, ४, १४१; -न्त्रैः  
 आश्री १, ११, १०; आपश्री;  
 -न्त्रौ आपश्री १६, २४, १५;  
 द्राश्री ३, २, ९; १५; लाश्री १, १०,  
 ७; ११; माष्ट १, ३, ४.  
 मन्त्र-करण- -णे पा १, ३, २५.  
 मन्त्र-कर्मन्- -र्म वीश्री २१,  
 ४ : ९××; शंध; -र्मणि अप  
 २, ६, ५; २६, ३, ४; ७०<sup>३</sup>, १, २.  
 मन्त्र-कार<sup>०</sup>- पा ३, २, २३; -रः  
 माष्ट १, ८, २.  
 मन्त्र-कृत<sup>०</sup> - कृतः काश्री ३,  
 २, ९; आपश्री २, १६, ६××;  
 वीश्री; -कृताम् काष्ट १, ११<sup>३</sup>;  
 -कंकृतवः आश्री ८, १४, १८;  
 वीश्री ९, १९ : ८; वीष्ट ३,  
 ४, ५.  
 मन्त्र-कृत- -त्तम् वीश्री २७,  
 १ : २; -त्तस्य वैगृ २, १ :  
 ३८<sup>३</sup>.  
 मन्त्र-कृष्ट-वत् काश्री १८, २,  
 १०.

a) वैप १ द्र. । b) पामे. वैप १, २४३९ b द्र. । c) विप. । उस. । d) तु. पागम. ।  
 e) <मनस्- + √ ईक्ष् इति शाकटायनः (तु. पागम.) । f) षी<sup>०</sup> इति पाठः ? यनि. शोधः । g) यन्त्र<sup>०</sup>  
 इति जीसं. । h) वै मन्त्रः इत्यस्य स्थाने वि मन्त्रः इति लासं. । i) तु. आन. । j) = शुब्-वाद- । k) वप.  
 <√कृ [करणे] । l) विप. > नाप. ।

मन्त्र-क्रम- -मेण काश्री १७,  
५, १७<sup>b</sup>; १२, १०; २६, ४, १७;  
७, १३.

मन्त्र-क्रिया- -या शंघ ३३८.

मन्त्र-गण- -णम् शुभ्र ३,  
१४३; २१६; ४, १६१; -णेन  
हिश्री ३, ८, १९.

मन्त्र-गणा(रा-आ)म्नात-  
-तानि वीश्री २७, १ : १; २ :  
२३.

मन्त्र-घृ( त >)ता<sup>b</sup>- -ताः

वीश्री ६२, ८ : २२.

मन्त्र-विकीर्णा(र्णा-अ)र्थ- -र्थम्  
मीसू ९, ३, ८.

मन्त्र-चोदना- -नयोः काश्री  
१, ५, ७.

मन्त्र-ज्ञ- -ज्ञेषु शंघ २५१.

मन्त्र-तसु(ः) आपश्री ३, ११,  
२१; वीश्री.

मन्त्र-त्व- -त्वे मीसू १०. ४,  
२१.

मन्त्र-दर्श-विद्<sup>c</sup>- -वित् अप  
३१, ३, १.

मन्त्र-दर्शिन- -दर्शिनः वृदे १,  
३४; -शीं वृदे ५, ६६.

मन्त्र-दूर्वा<sup>d</sup>- -र्वा वीश्री २२,  
५ : १९.

मन्त्र-दृश- -दृग्भ्यः वृदे १, १;  
-दृशम् वृदे ५, ५८.

मन्त्र-दृष्टि<sup>e</sup>- -दृष्टयः या ७, ३;  
-दृष्टिषु वृदे १, ३.

मन्त्र-देवता- -ताभ्यः शाश्व १,  
३, ४.

मन्त्र-देवत-ज्ञ- -ज्ञः शुभ्र ४,  
१५६.

मन्त्र-देवत-वर्जि(त >)ता-

-ता कप्र १, ८, २१.

मन्त्र-देवत-विद्<sup>f</sup>- -वित् वृदे  
८, १३३.

मन्त्र-द्रष्टृ- -ष्टा अश्रभू १.

मन्त्र-निरुह- -प्तम् वीश्री २३,  
२ : १३; १८ : ४.

मन्त्र-पति<sup>g</sup>- -तिभ्यः आश्री  
८, १४, १८; वीश्री ९, १९ : ९;

वीश्व ३, ४, ५; वैश्व २, ११ : ५;  
-वीश्व वीश्री ९, १९ : १७; वीश्व  
३, ४, ११.

मन्त्र-परिक्रम<sup>h</sup>- -मान् कौसू  
७३, १९.

मन्त्र-पवित्र<sup>i</sup>- -वत्- -वान् अप  
६९, ८, २.

मन्त्र-पाठ-फल- -लम् अश्रभू ८.

मन्त्र-पुरो( प >)षा<sup>j</sup>- -या  
वीश्री २२, ८ : १५.

मन्त्र-पूत- -तः विध ८३, १३;  
-तम् काश्व ४६ : ९; -तस्य या  
१३, ६.

मन्त्र-पृथक्त्व- -त्वात् शाश्री १,  
२, २४.

मन्त्र-प्रणिधि<sup>k</sup>- -धयः शंघ  
२५१.

मन्त्र-प्रविलाभ- -भात् वीश्री  
२०, २ : ३२.

मन्त्र-प्रत्यभिर्माण- -नम् वीश्री  
२०, २ : २८.

मन्त्र-प्रयोग- -गः माश्री ४, १,

३२; वाश्व ९, ३; कप्र ३, ९, १४  
-गात् वाश्व २, ३; -गे माश्री  
५, २, १५, १३.

मन्त्रप्रयोग-मन्त्र- -न्त्रयोः  
वृदे ५, ९४.

मन्त्र-बल- -लम् काश्री १,  
५, ७.

मन्त्र-ब्राह्मण<sup>l</sup>- -णम् वीश्व २, ६,  
२; ३, २, ६३; मैश्व ३; -णयोः  
आपश्री २४, १, ३१<sup>n</sup>; हिश्री १,  
१, ७; कौश्व ३, १२, २३; वीश्व  
२, ६, ३; चव्यू २ : २१; -णानि  
वाश्व ६, ३२; -णे आपश्री २४,  
१, ३०; हिश्री २३, ३, ३३;  
वीश्व २, ६, ४; ५.

मन्त्र-ब्राह्मण-मात्र- -त्रम्  
वीश्री २८, १० : ८.

मन्त्र-ब्राह्मण-विद्<sup>m</sup>- -वित्  
वाध ३, १९; गौध १५, २८.

मन्त्र-ब्राह्मण-कल्प- -ल्पानाम्  
चव्यू २ : ३९; -ल्पैः या १३, ७.

मन्त्र-ब्राह्मण-कल्प-पितृमैध-  
महाप्रता(त-अ)ष्टापदी-वैपुवत<sup>o</sup>-  
-तानि माश्व १, ४, १२.

मन्त्र-सार्ग-प्रमाण<sup>m</sup>- -णम् वीश्व  
४, ६, ९.

√मन्त्रय > मन्त्रयु- पाउना  
१, ३७<sup>n</sup>.

मन्त्र-लिङ्ग- -ङ्गात् काश्री ९,  
४, २४; १९; २, ७; मीसू १०,  
३, १३.

मन्त्र-लोप- -पात् आश्री २,  
१९, २७.

a) तु. चीनं. । b) वस. । c) पस. > उस. उप. < √विद् [ज्ञाने] । d) = [दूर्वाशब्दवती-] इष्टका-विशेष- । e) सप्त. । f) उप. < √विद् [ज्ञाने] । g) वैप १ द. । h) तृस. उप. पवित्र- = पवित्रता- । i) = [पुरीयशः-वती-] इष्टका-विशेष- । j) मलो. कस. पूष. = गुण-वाद-, उप. = दूत- । k) हस. उप. = ब्राह्मण- । l) 'पदी वैपु' इति पाठः ? यनि. शोत्रः (ह. भाष्यम्, Knauer; वैपु. भाष्यम् अन्यथाव्याख्यानमिते) । m) मलो. कस. । मन्त्रसार्ग- = मन्त्रपाठ- इति भाष्यम् । n) < मन्त्र- + √या ।

मन्त्र-वचन- -नम् काश्रौ १, ७, ८; १०, २, ३०; १८, ६, ९.  
 मन्त्र-वत्- -वत्\* आश्रौ १, १२, २३; आपश्रौ; आमिगृ ३, १०, ४ : २३, मागृ १, १०, २; २, २, २; -वतः आमिगृ ३, १, १ : ३; -वता आपश्रौ २४, २, १४; वौष १, ७, ७; -वताम् आपश्रौ ६, ३०, ९; २०; -वती आपश्रौ २, १४, ११; भाश्रौ २, १४, २; वैश्रौ ६, ३ : १२; -वत्सु शाश्रौ ४, ६, १०; काश्रौ ८, ५, ३४; आपश्रौ; -वन्तः वौश्रौ २१, १ : ६; २५; २२, ९ : १९××; -वन्तम् आपश्रौ १४, २३, ९; १०; वौश्रौ; -वन्ति वौश्रौ २१, १ : १०××; भाश्रौ; -वान् वौश्रौ २०, १६ : २४××; गोय २, २, ८; १०, १७; द्राय २, ४, १०.

मन्त्रवती- -ती वौश्रौ २१, १९ : ९; ११; २६ : ३××; -तीम् आपश्रौ १४, २३, ८; वौश्रौ २६, ३१ : ३; -त्यः वौश्रौ २१, १३ : २५; २४, ३६ : ५; -त्या आपश्रौ ५, १९, ३.

!मन्त्र-वर्गम्<sup>b</sup> वाश्रौ २, २, ५, ३. मन्त्र-वर्जम् वैश्रौ १२, १२ : १३; पागृ १, ४, ११; आपगृ.

मन्त्र-वर्जित, ता- -तम् विध ७५, ७; -ता वैगृ ५, ९ : ४; -ताम् वैगृ ५, ९ : १३.

मन्त्र-वर्ण- -र्णः निस् २, १२ : ८; गोय ३, ४, १२; मीस् १०, १, १३; -र्णाः सा २, १६; -र्णात् काश्रौ १, ४, १२; शुभ्र ४, १९४;

मीस् ३, ५, ३८; ६, १, ५०; ९, ३३; ९, २, ५४.

मान्त्रवर्णि(क<sup>c</sup>>)की-  
 -की शुभ्र ३, १५६; -क्यः शुभ्र ४, ११३.

मन्त्र-वह<sup>d</sup>- -ंह विध १, ५३. मन्त्र-वाक्या(क्य-अ)र्थ- -र्थाः वृदे १, ६०.

मन्त्र-विकार- -रः मीस् १०, ३, २३.

मन्त्र-विद्<sup>e</sup>- -वित् वाध ११, २०; वृदे १, २२; ९०; ३, १३३; ५, ९३; -विदः आगृ २, ३, १०; हिगृ २, १७, ८.

मन्त्र-वित्-तम- -मः वृदे ३, १३३; -मैः वृदे २, १२२.

मन्त्र-विधि- -धिः द्राश्रौ १, १, २; लाश्रौ १, १, २; वागृ ९, २; मीस् ३, २, २०.

मन्त्र-विपर्यास- -सम् आपश्रौ १७, १९, ९; -से आमिगृ २, ७, ४ : ४; वौगृ ४, ११, १.

मन्त्र-विवर्जित- -ते वौष १, ५, ८३.

मन्त्र-विशेष- -षः गोय १, ३, १२; ३, २, ४३.

मन्त्रविशेष-निर्देश- -शात् मीस् १०, ४, २९.

मन्त्र-न्यतिरेक-<sup>f</sup> -के वौशु ६ : १८.

मन्त्र-संस्कार-कर्तृ- -र्तुः शंघ २८९.

मन्त्र-संस्कृत, ता- -तम् अप्राय ४, ३; अप ३६, २८, १; -ता वाध १७, ७३; ७४; -ताः वौश्रौ २४, ३६ : ७.

मन्त्र-संज्ञाम- -मः आपगृ २, ८. मन्त्र-समापन- -नात् आपश्रौ १७, १७, ८; वैश्रौ १९, ६ : ११४; हिश्रौ १२, ६, १.

मन्त्र-सहि(त>)ता- -तया काश्रौसं ३५ : २.

मन्त्र-सागर- -रः याशि १, ३१.

मन्त्र-साधन- -ने अप ३६, ७, २.

मन्त्र-सिद्धि- -द्धये शागृ ४, ५, १६.

!मन्त्र-स्कन्न- -न्नम् अप्राय ४, ३.

मन्त्र-स्थान- -ने आपश्रौ २१, ६, १२; १५.

मन्त्र-स्तान- -नम् वैगृ १, ५ : २; ६.

मन्त्र-स्फिज्<sup>g</sup>- -स्फिग् विध १, ६.

मन्त्र-स्वर- -रः भासू १, २.

मन्त्रस्वर-वत् भासू ३, २५. मन्त्र-हीन- -नम् आमिगृ २, ७, ७ : २; वैगृ ७, ३ : १२; -ने वौश्रौ २८, ११ : १.

मन्त्रहीन-ज- -जः वैध ३, १३, १०.

मन्त्रहीनो(न-उ)पनीत<sup>h</sup>- -तः वैध ३, १३, ८.

मन्त्रा(न्त्र-आ)ख्या- -ख्या मीस् २, १, ३०.

मन्त्रा(न्त्र-अ)तिरेक- -के हिश्रौ २२, २, ६.

!मन्त्रा(न्त्र-आ)दि- -दिः आपश्रौ ८, ८, २१; १९, ९; २१, १; -दिस् हिश्रौ ८, १, ७८.

a) कचिद् वा. किवि. । b) पाठः ? 'वर्जम्' इति शोधः । c) तत्रभवीयप् टक् प्र. । d) = विष्णुः । उस. । e) उप. < √विद् [ज्ञाने] । f) विप. (बराहः [विष्णु-]) । वस. । g) छुष्पीयः समासः ।

२मन्त्रा(न्त्र-आ)दि<sup>३</sup>- > ष-  
(दि-अ)थै- -थैम् पावा १, १,  
६८.

मन्त्रा(न्त्र-आ)नर्थक्य- -क्यम्  
मीस् १,२,३९.

मन्त्रा(न्त्र-अ)नादेश- -शे  
वैताश्री १,२; द्राग २,२,१६.

मन्त्रा(न्त्र-अ)नुदिशम्<sup>४</sup> वीश्री  
२०, २६: १७; २२, ९: २५.

मन्त्रा(न्त्र-आ)नुपूर्त्य- -त्यैस्<sup>५</sup>  
वीश्री २,६: १४; -व्यात् माश्री  
४,१,२.

मन्त्रा(न्त्र-अ)नुलोकम्<sup>६</sup> वीश्री  
२०, २६: १७; २२, ९: २५.

मन्त्रा(न्त्र-अ)नुवाक- -का: मैश्र  
१०.

मन्त्रा(न्त्र-अ)न्त- -न्तम् वाश्री  
१,१, ३, १६; हिश्री १, ४, ३;

द्राग १,१,१८; -न्तान् आपश्री  
१९, २५, ६; आग्निगृ; -न्ते शाश्री  
१,२,२५; माश्री; -न्तेन शाश्री  
१, २, २६; माश्री; -न्तै: काश्री  
१, ३, ५; आश्री २४, २, १;

माश्री १,२,२.

मन्त्रा(न्त्र-अ)न्तर- -रे काश्रीसं  
३१: ३.

मन्त्रा(न्त्र-अ)न्तर्भू(त>)ता-  
-न्ता: शुश्र १,७.

मन्त्रा(न्त्र-अ)भिवाद- -दात्  
द्राग १,३,४; ३,१,९.

मन्त्रा(न्त्र-अ)भ्यास- -स: वीश्र  
२,८,८; मीस् ११,४,४७.

मन्त्रा(न्त्र-अ)मन्त्र- -न्त्रे वीश्री  
२०,१६: २४; २१,१: ६×.

मन्त्रा(न्त्र-आ)ज्ञान- -नात् काश्री  
६,३,१८; २०,७,२.

मन्त्रा(न्त्र-आ)ज्ञाय- -ये कश्र

३,६,१.

मन्त्रा(न्त्र-अ)थै- -थैम् शुश्र ४,  
१५८.

मन्त्रार्थ-चिन्ता(न्ता-अ)  
भ्यूह- -ह: -हम् या १३,१२.

मन्त्रार्थ-ज्ञान- -नात् शुश्र  
४,१५९.

मन्त्रार्थ-नानात्व- -त्वात्  
मीस् ११,४,४२०.

मन्त्रार्थ-प्रत्यय- -याय या  
१,१५.

मन्त्रार्थिन्- > षथि-त्व-  
-त्वात् मीस् १०,३,१५.

मन्त्रा(न्त्र-अ)वहत- -तम् काश्री  
१४,४,९.

मन्त्रा(न्त्र-आ)वृत्ति- -त्ति:  
काश्री ७,९,११; ८,३, २९; ५,  
२०.

√मन्त्रि, ऋमन्त्रयते अप ४८,  
९; निघ ३, १४; मन्त्रयन्ते  
वाधुश्री ३, १८: १६; मन्त्रयत  
अप ३७,४,१; मन्त्रयेरन् माश्री  
१,५,५,१६.

मन्त्रणा- > णा(णा-अ)र्ह-  
( > ष्ठीयि- पा.) पाग ४,२,  
९०.

मन्त्रिन्- पाग ३,१,१३४;  
-न्त्रिण: अप १,३१,६; ५८<sup>३</sup>,  
४,७; ६३,४,२; -न्त्रिणम् अप  
५,५,३; १९,१,१२; -न्त्रिणाम्  
अप ५३, ६, २; ७१, १९, ५;  
-न्त्रिभि: वाध १६,२०; -न्त्री  
वाध १६,२.

मन्त्रै(न्त्र-ए)कदेशा (श-अ)  
भ्यास- -स: जैश्री २६: १०.

मन्त्रो(न्त्र-उ)क्त, क्ता- -क्त:  
अश्र ७,३६; -क्तम् वैताश्री ३०,

२७; कौस्; -क्तस्य कौस् २६,  
१४; ३६; ३१, २२; -क्ता: कौस्  
३९, ५; अश्र ३, २४××;  
-क्तान् कौस् १९, २२××; अश्र  
१,१××; -क्तानि वैताश्री ११,  
१५, कौस् ३४, १४××; -क्ताम्  
वैताश्री १, १४; अश्र ४, १२××;  
-क्ते वैताश्री ५, ७; कौस् ३५, ८;  
अश्र ६, ४३; -क्तेभ्य: कौस् ७७,  
२३; -क्तेषु कौस् ७७, ११;  
-क्ते: कौस् ४६, ४२; -क्तौ कौस्  
३५, २०; ८०, ४.

मन्त्रोक्त-कर्ममात्र-देवता-  
> ष्य- -त्यम् अश्र १९, ६८.

मन्त्रोक्त-काम-देवत- -तम्  
अश्र १९, ५२.

मन्त्रोक्त-कुष्ठ-देवता- >  
ष्य- -त्यम् अश्र १९, ३९.

मन्त्रोक्त-गुलुगुलु-देवताक-  
-कम् अश्र १९, ३८.

मन्त्रोक्त-गृध्र-देवता- >  
ष्य- -त्यम् अश्र ७, ९६.

मन्त्रोक्त-तपो-देवता- >  
ष्य- -त्यम् अश्र १९, ४१.

मन्त्रोक्त-त्रिपंथि-देवता- >  
ष्य- -त्यम् अश्र ११, १०.

मन्त्रोक्त-दन्त-देवता- >  
ष्य- -त्यम् अश्र ६, १३९.

मन्त्रोक्त-दर्भमणि-देवता-  
> ष्य- -त्यम् अश्र १९, २८.

मन्त्रोक्त-दु:स्वप्ननाशन-  
देवता- > ष्य- -त्यम् अश्र ७,  
२३.

मन्त्रोक्त-देव-वान् अश्र १,  
२५; ३, ११××; -वौ अश्र ७, ८.

मन्त्रोक्त-देवता- -ज्ञा: अश्र  
१, १७; ४, ६; ७, १५; -तायाश्



वैताथ्रौ ३१, ४<sup>१</sup>; -ताम् अत्र  
२, २४; ५, ११; ६, ९; १७;  
-ते अत्र २, ९.

मन्त्रोक्तदेवता-स्तुति-

-ति: अत्र ६, ५५.

मन्त्रोक्तदेवत्य, त्या-

-त्य: अत्र ११, ३(३); -त्यम्  
अत्र ६ ११××; -त्यया अत्र ७,  
१२; -त्या अत्र १९, ४; -त्या:  
अत्र १०, ५; ११, ३(२)××;  
-त्ये अत्र ६, ४०××.

मन्त्रोक्त-देवताक- -कम्

अत्र २, १४; ५, २९.

मन्त्रोक्त-देवपत्नी-देवताक-

-कम् अत्र ७, ४९.

मन्त्रोक्त-देवत- -तम् अत्र

६, ८९××; -ते अत्र ७, ९९.

मन्त्रोक्त-नक्षत्र-देवता->

°त्य- -त्ये अत्र १९, ८.

मन्त्रोक्त-नानादेवता->

°त्य- -त्ये अत्र ६, ७४.

मन्त्रोक्त पितृ-देवता->

°व(त्य >) त्या- -त्या: अत्र १८,  
१.

मन्त्रोक्त-पिप्पली-देवता-

>°त्य- -त्यम् अत्र ६, १०९.

मन्त्रोक्त-प्राण-देवता->

°त्य- -त्यम् अत्र ११, ४.

मन्त्रोक्त-फालगुणि-देवता-

>°त्य- -त्यम् अत्र १०, ९.

मन्त्रोक्त-बहुदेवता->°त्य,

त्या- -त्यम् अत्र ५, २७××;

-त्या: अत्र १९, १६; २४.

मन्त्रोक्त-ब्रह्मचारि-देवता-

>°त्य- -त्यम् अत्र ११, ५<sup>१</sup>०.

मन्त्रोक्त-ब्रह्म-देवता->

°व(त्य >) त्या- -त्या: अत्र  
१९, ४२<sup>१</sup>०.

मन्त्रोक्त-मन्यु-देवता->

°त्य- -त्यम् अत्र ६, ४२.

मन्त्रोक्त-मन्युशमन-

देवताक- -कम् अत्र ६, ४३.

मन्त्रोक्त-मरुद्-देवताक-

-कम् अत्र ७, ७७.

मन्त्रोक्त-यक्षमनाशन-

देवता->°त्य- -त्यम् अत्र ६,  
९१.

मन्त्रोक्त-रात्रि-देवता->

°व(त्य >) त्या- -त्या: अत्र  
१९, ४७.

मन्त्रोक्त-रुद्र-देवता->°व

(त्य >) त्या- -त्या: अत्र १५,  
५.

मन्त्रोक्त-रुद्र-दैवत<sup>d</sup>- -तम्

अत्र ११, २.

मन्त्रोक्तविदेवता->°त्य-

-त्यम् अत्र ६, ४८.

मन्त्रोक्त-वज्र-देवता->°व

(त्य >) त्या- -त्ये अत्र ६, १३४.

मन्त्रोक्त-वरुण-देवता->

°त्य- -त्यम् अत्र १०, ३.

मन्त्रोक्त-वशा-देवता->

°त्य- -त्यम् अत्र १०, १३; १२,  
४.

मन्त्रोक्त-वागादि-दैवत-

-तम् अत्र १९, ६०.

मन्त्रोक्त-वृश्चिक-देवताक-

-कम् अत्र ७, ५६.

मन्त्रोक्त-शतौदन-देवता-

>°त्य- -त्यम् अत्र १०, १२.

मन्त्रोक्त-सर्वात्मक-काल-

देवता->°व(त्य >) त्या-

-त्या: अत्र १९, ५३.

मन्त्रोक्त-स्कम्भा(म्भ-अ)

ध्यात्म-देवता->°त्य- -त्यम्  
अत्र १०, १०<sup>e</sup>.

मन्त्रोक्त-स्वर्गौदनाग्नि-

देवता->°त्य- -त्यम् अत्र  
१२, ३.

मन्त्रोक्ता(क्त-अ)ज-पञ्चौ-

दन- देवता->°त्य- -त्यम्  
अत्र ९, ५<sup>f</sup>.

मन्त्रोक्ता(क्त-आ)ञ्जन-

देवता->°त्य- -त्यम् अत्र १९,  
४४.

मन्त्रोक्ता(क्त-आ)त्म-देवता-

>°त्य- -त्यम् अत्र ७, २१.

मन्त्रोक्ता-फल<sup>g</sup>- -लम् कौस्  
३१, २८.

मन्त्रोक्ता(क्त-अ)घृ-देवता-

>°व(त्य >) त्या- -त्या: अत्र  
१९, ६९.

मन्त्रोक्ता(क्त-अ)वृद्धि-देवता-

>°त्य- -त्यम् अत्र ११, ९.

मन्त्रोक्ते(क्त-इ)डा-देवता-

>°त्य- -त्यम् अत्र ७, २७.

मन्त्रोक्ते(क्त-इ)न्द्रामि->

°कै(क्त-ऐ)न्द्राम<sup>h</sup>- -मम् अत्र  
७, ९७.

मन्त्रोक्तौ(क्त-औ)दुम्यर-

मणि-देवता->°त्य- -त्यम्  
अत्र १९, ३१.

a) पाठः ? °ताभ्यः इति शोधः (तु. तै ३, ३, ८, ४-६ प्रमृ., ०.) । b) °चारी इति पाठः ? यनि.

शोधः । c) °ह्मा इति पाठः ? यनि. शोधः । d) कस. > वस. । e) °भोऽध्या इति पाठः ? यनि. शोधः ।

f) कस. > दस. > कस. । °जं पञ्चौ इति पाठः ? यनि. शोधः । g) पूष. = काकमाची- इति दारिलः । h) साऽत्य-

देवतीये षणि उप. वृद्धिः ।

मन्त्रोक्तौ(क्त-ओ)पधि-  
 देवताक- -कम् अत्र ८,७.  
 मन्त्रो(न्त्र-ऊ)न- -नम् वौश्री  
 २७,४:३.  
 मन्त्रो(न्त्र-उ)पदेश- -शः मौसू  
 १२,३,२१; -शात् काश्री ४,  
 ३,६.  
 मन्त्रो(न्त्र-उ)पनी(त >)ता-  
 -ता वाघ १७,७२.  
 मन्त्रो(न्त्र-उ)पवेशन- -नम्  
 वाश्री १,१,६,२; ६.  
 मन्त्रो(न्त्र-ऊ)ह- -हेण विघ  
 ७५,७.  
 मन्त्री(न्त्र-ओपधि >)पधी-  
 -न्यः अत्र ३,२,२.  
 मन्मन्त्र- -न्म शाश्री १६, २१,  
 २७; वौश्री; या ४, २५; ६,  
 २२; १०,४२; -न्मनः आश्री  
 ५, १०, २८; ७, २,४; ५, १७;  
 शाश्री; -न्मना<sup>१</sup> आश्री १,५,३५;  
 नाश्री; -न्मभिः द्राश्री १३, २,  
 ८; लाश्री; -न्मानि या ८,६.  
 मन्य- -न्यात् हिश्री ६,३, १४.  
 मन्यन्तम- -मात् हिश्री ६, ३,  
 १४.  
 मन्यम्<sup>२</sup> वैश्री २, २: ६५.  
 मन्यमान- -नः आश्री २, १०,  
 १५; वौश्री; -पनाः आश्री  
 ३,३,१; ७,९,२; शाश्री.  
 मन्यु<sup>३</sup>- पाठ ३, २०; -न्यवे  
 आश्री ६, ४,१०; शाश्री; गोर  
 १, ४, १०; कप्र २, ४, १-५;  
 -न्युः आपश्री १८, १७, १२; ३;

वौश्री; अप ४२, २, ११; वाघ  
 ३, १८; आपघ १, २६, १३;  
 वौष १, १०, १२; विघ ५,  
 १९०; हिघ १, ७, २४; ६३;  
 ६४; ऋअ २, ९, ९७; १०,  
 ८३; वृदे १, १२३; २,  
 ५३; साअ १, ५४०; ५;  
 या १०, २९; -पान्युना  
 आश्री २, १०, १६; आपश्री  
 १२, २२, ५; माश्री १, ६,  
 ५, ७; २, ४, १, १५; वौष  
 ३, ४, ४; अत्र ७, ९३; -न्युम्  
 आपश्री २०, २०, ७; आपमं  
 २, २२, ३; हिश्री १, १५, ३;  
 आपघ १, २९, ७; वौष १,  
 १०, १२; विघ ५, १९०; हिघ १,  
 ७, ६३; ऋप्रा ८, ३४; वृदं ४,  
 १३४; अत्र ५, ३; -पान्यो  
 आश्री ९, ७, २; वौश्री; या १,  
 १७; १०, ३०; -पान्योः आपमं  
 २, २२, १; पाठ ३, १३, ५; हिश्री  
 १, १५, ३.  
 मान्यव<sup>४</sup>- -वम् ऋअ २,  
 १०, ८३; -वे वृदं ७, ११७;  
 या १, १७.  
 मन्यु-द्वैवत- -न्ते अत्र ४, २१.  
 मन्त्यु-परोक्ष<sup>५</sup>- -स्तस्य आपश्री  
 ५, २७, १२; माश्री ५, १९, १०;  
 वाश्री १, ५, १, ९; वैश्री.  
 मन्त्यु-भक्त- -भक्ते वौश्री १३,  
 १३: ६५; -मन्तः<sup>६</sup> आपश्री  
 २६, ९, १५; हिश्री १६, ४, १३;  
 -मन्तम् कप्राय १, ३.

मन्यु-विनाशन- -नम् अत्र ६,  
 ८९.  
 मन्यु-सूक्त- -कम् अत्र ४,  
 ३१; -क्ते आश्री ९, ८, १९;  
 शाश्री १४, २२, ५.  
 मन्वान- -नः वैश्री १२, १८: ८;  
 २०: १३; वृदे ६, ११२.  
 मन्वान<sup>७</sup>- -नम् शाश्री १५, २७, १५;  
 सु २७, ६; वाघ २, १२; वौष  
 १, २, ५०; नाशि ३, ७; -नाव  
 नाशि १६, १५.  
 मन्वानिन्- -नितः नाशि २,  
 ८, २६; -नितम् वाघश्री ३,  
 ७६: १०.  
 मन्वानिन्<sup>८</sup>- -निति पावा ४, १, १.  
 मन्वानिन्- -नितोः पा ६, ३,  
 ३६.  
 मानिन्-ग्रहण- -णम् पावा ६,  
 ३, ३५.  
 मान्यन्त्या- -न्यः विघ ६३, ५१;  
 -न्यम् वाघ १३, ५६; -न्यानि  
 गौष ६, २०; -न्या कप्र ३,  
 १, १३; -न्याः शंघ ४३.  
 मन- ( >मानायन- ) १धर्म-  
 टि. द्र.  
 १मनन- ✓मन् द्र.  
 २मनन<sup>९</sup>- ( >माननायन- पा.) पाण  
 ४, १, ११०.  
 मनःशिला<sup>१०</sup>- -लया अप १८,  
 ३, १.  
 मनःशिला-प्रियङ्गु-तगर- -राशि  
 अत्र ३५, २, १.  
 १मनस्- ✓मन् द्र.

a) वैप १ द्र. । b) पाभे. वैप १, १३५५ f द्र. । c) कर्मणि यत् प्र. उक्ष. (पावा ३, १, ९७) ।  
 d) <मन्यवे (मा १६.१) वा <मन्युम् (वृ. C.) इति वा ? । e) = ऋषि-विशेष- । f) पाभे. वैप १, २४४३ d  
 द्र. । g) साडस्वदेवतीयः प्र. । h) सपा. माश्री ५, १, १०, ५ मरुत्वते इति पाभे. । i) पाभे. वैप १,  
 २४४३ m द्र. । j) स्वरमन्यु इति पाठः? स्वसरे-च यनि. च शोधः (वृ. सपा. शौ १, ४५८ आपश्री. प्रसू.) ।  
 k) न्युः सू इति पाठः? यनि. शोधः । l) पा ३, २, ८२; ८३ । m) व्यप. (वृ. पाणि.) । n) = घातु-विशेष- ।

रमनस् L, स<sup>०</sup> <sup>१०</sup> - (> मानस्य-  
मानसायन- पा.) पाग ४, १,  
१०५; ११०.

रमना- -ना<sup>०</sup> आपश्रौ ४, १०, ४;  
१०, २२, ८; वौश्रौ ६, १२ :  
१७; भाश्रौ ४, १५, ३; १०,  
१५, ५; वैश्रौ ६, १२ : ८; १२,  
१६ : १३; माश्रौ २, १, ३, ३५;  
हिश्रौ ६, ३, २; या ५, ५; -नार्य  
कौस् १०७, १; २; अप १८<sup>३</sup>,  
१, ६.

रमनाक्<sup>१</sup> वौश्रौ ३, २८ : ९; ५, ५ :  
५×५; वैश्रौ ८, १० : ८; आमिष्ट  
१, ६, ३ : ३२; पाग १, १, ३७.

रमनाक- पाठभो २, २, १३.

रमनाका- पाठवृ ४, १४.

रमनायु<sup>१</sup> -युः वौश्रौप्र २२ : २.

रमनिपाण<sup>०</sup> हिश्रौ १४, ४, ३८<sup>३</sup>.

रमनीपा- प्रमृ. ✓मन् द्र.

रमनु(वप्रा.)<sup>१</sup> - पाठ १, १०; पा ४,  
१, ३८; पाग ४, १, १८;  
१०५; -नवः आपश्रौ १४, १६,  
११; हिश्रौ; विध २०, २४<sup>६</sup>;  
-रनवे आपश्रौ १४, ११, ३<sup>६</sup>;  
वौश्रौ ६, २४ : ३५; ८, १२ :  
२८<sup>६</sup>; हिश्रौ २, १, ६<sup>६</sup>×५;  
हिष्ट १, २, १३<sup>६</sup>; -नु<sup>६</sup> ऋअ  
३, १४; -नुः आश्रौ २, ७, २<sup>१</sup>;  
१०, ७, १<sup>६</sup>; शाश्रौ १६, २, १<sup>६</sup>;  
आपश्रौ; कौष्ट ३, १०, ३५<sup>१</sup>; शांष्ट  
२, १६, २<sup>१</sup>; वैष्ट ३, ४ : १२<sup>६</sup>;  
वाध १, १७<sup>१</sup>; आपध २, १४,

११<sup>६</sup>; वौध ४, १, १४<sup>१</sup>; ३, १६<sup>१</sup>;  
गौध २१, ७<sup>१</sup>; ऋअ<sup>१</sup> २, ८, २७;  
९, १०१; १०६; वृदे ६, ६८<sup>१</sup>;  
शुअ ३, २५१<sup>१</sup>; या १, ५<sup>१</sup>; ३,  
४<sup>१</sup>; १२, १०<sup>१</sup>; ३३<sup>१</sup>क<sup>१</sup>; ३४<sup>१</sup>;  
-रनुना आपश्रौ ३, १, ७; वौश्रौ;  
-नुम् काष्ट ४१, ७<sup>१</sup>; शंघ  
११६ : ४०<sup>१</sup>; ५६<sup>१</sup>; वृदे ७, २<sup>१</sup>;  
१०७; -नूत् कौस् १०६, ७<sup>१</sup>;  
-नोः शाश्रौ १०, ११, ८; काश्रौ;  
वौष्ट २, ९, १५<sup>१</sup>; या ३, ७<sup>६</sup>;  
-रनौ आपश्रौ ६, ३०, २०<sup>६</sup>;  
वौश्रौ ३, १२ : २८<sup>६</sup>; भाश्रौ  
६, १८, ७<sup>६</sup>; माश्रौ १, ६, ४,  
२४<sup>६</sup>; वाश्रौ १, ५, ५, ८<sup>६</sup>;  
हिश्रौ ६, ८, १<sup>६</sup>; जैष्ट १, २४ :  
७<sup>६</sup>; ऋअ २, ८, ५१×५; वृदे  
२, १३०<sup>१</sup>.

रमनाथी- पा ४, १, ३८; पाग  
४, १, १८; १०५.

रमानाय- पा४, १, १०५.

रमानाय्याय(न>)

नी- पा ४, १, १८.

रमनावी- पा ४, १, ३८.

रमानव<sup>१</sup> - -व आश्रौ १, ३, ५;  
शाश्रौ १, ४, १८; आपश्रौ २४,  
१०, १२×५; वौश्रौप्र; -वः शाश्रौ  
१६, ११, २९; आमिष्ट; -वम्  
शाश्रौ १२, ९, १७; वाध; -वाः  
आमिष्ट ३, ८, २ : १८; वौपि १,  
१५ : २८; अप ४८, ७८<sup>१</sup>; वाध  
१९, ४५; विध ११, ११; शंघ

५; चव्यू २ : ७<sup>१</sup>; -वात् द्राश्रौ  
७, ४, ६; ८, २, २; लाश्रौ ३, ४,  
१५; ४, ६, २; -वानाम् कौस्  
१३७, १६<sup>१</sup>म; या १२, ३४;  
-रवाय आपश्रौ १७, १३, २;  
हिश्रौ १२, ४, ४; -रवेभ्यः  
माश्रौ २, ५, ४, २४; हिश्रौ १५,  
७, १३; वैताश्रौ १६, १५; -रवैः  
वौश्रौ १०, १० : २; भाष्ट २,  
१ : १५.

रमानवी<sup>१</sup> - -वी आश्रौ

१, ७, ७<sup>१</sup>; शाश्रौ १, १२, १<sup>१</sup>;  
आपश्रौ १९, १९, ८; वौश्रौ १३,  
१ : १०; १७ : ७; हिश्रौ २१,  
२, ६<sup>१</sup>; २२, ३, ७; -वीः वौश्रौ  
३, ८ : १९<sup>१</sup>; -व्यः काश्रौ २४,  
२, ८<sup>१</sup>; आपश्रौ २४, १०, १८<sup>१</sup>;  
वौश्रौ २४, २८ : ४<sup>१</sup>; वौश्रौप्र  
५४ : ५; ८; हिश्रौ २१, ३, १८;  
-व्याः चाश्र ७ : १; ४१ : १०;  
रमानव-चव्यू<sup>१</sup> काश्रौसं २९ :  
२१.

रमानवा(व-आ)दि<sup>१</sup> - -दिः

लाश्रौ १०, ४, १.  
रमानव्य- पा ४, १, १०५.  
रमानव्याय( न>)नी- पा  
४, १, १८.

रमनु-ज- -जेषु विध २०, २५.

रमनुजा( ज-अ)धिप- -पः अप  
७०<sup>१</sup>, १७, १.

रमनु-तन्तु<sup>१</sup> - -न्तवः वौश्रौप्र ३१ :  
८.

- a) पाका. पाठः । b) = ऋषि-विशेष- । c) वैप १, २४४४ k द्र. । d) अल्पाद्यै अल्प- । व्यु-  
वैप १, २४४४ o द्र. । e) वैप १, ८३९ h द्र. । f) वैप १ द्र. । विशेषः टि. द्र. । g) = प्रजापति-  
विशेष- । h) मनुपः (ऋ १०, ११०, १) इत्यस्य प्रतीकम् । i) = स्मृति-कार- । j) = द्वादशसाध्याऽन्यतम- ।  
अपु २१९, २५ मनः इति । k) पाठः ? मणौ इति शोधः (तु. वैप १, २४०६ b) । l) = मैत्रायणीयशाखा-  
भेद- । m) पाभे. वैप १, २४४५ g द्र. । n) = (मनु-दृष्टा-) ऋच्- । सप्र. आपश्रौ २३, ३, ६ मनोर्कश्च इति  
पाभे. । o) पूष. = मानवश्रीतस्त्र- । p) बस. पूष. = साम-विशेष- ।

†मनु-प्रवल्ह- ल्हः शांश्रौ १०,  
११,८.

मनु-वृत् काश्रौ ३,२,१२; आपश्रौ.

मनु-वृत्- तः शांश्रौ ७,९,३१.

मनोर-ऋच्- ऋचः आपश्रौ २३,  
३,६<sup>५</sup>.

मन्व(नु-अ)न्तर<sup>b</sup>- -रम् शंघ ११६ः  
४४; ५६९<sup>६</sup>; विघ २०, ११;  
४२, २४.

†मन्वि(नु-इ)द्व<sup>d</sup>- -द्वः आश्रौ १,३,  
६; शांश्रौ १, ४, १९; ७, ९, ३; ३;  
वौश्रौ ३, १८ : २; माश्रौ ५, १,  
४, १३; हिश्रौ २१, २, १०.

मनु-ज- प्रभृ. मनु-द्र.

मनुष<sup>d</sup>- -पाय या ६, २६<sup>१</sup>†<sup>६</sup>.

मनुष्य<sup>d</sup>- पा ४, १, १६१; पाग ४, १,  
४१; -प्यः †आपश्रौ ४, १६,  
४<sup>६</sup>××; वौश्रौ; भाश्रौ ६, ३, ७<sup>६</sup>†<sup>६</sup>;  
हिश्रौ ६, ६, १७<sup>६</sup>†<sup>६</sup>; -प्यम्  
आपघ १, १६, १४; हिघ १, ५,  
१३; -प्यस्य वौष ३, १, २; ४;  
आपघ १, २१, १५; हिघ;  
-प्यस्यऽ-प्यस्य या ८, ५; १२<sup>३</sup>;  
१०, ८; -प्या या ३, ११<sup>१</sup>†<sup>६</sup>;  
-प्याः आश्रौ १, ७, ७<sup>६</sup>†<sup>६</sup>; १०, ७,  
१; १२, ९, १८; शांश्रौ; या ३,  
७<sup>६</sup>†<sup>६</sup>; -०प्याः आश्रौ ३, ३,  
१<sup>६</sup>†<sup>६</sup>; -प्याणाम् शांश्रौ १०,  
१८, ६<sup>६</sup>†<sup>६</sup>; काश्रौ १, १, ४; २,  
१, १८<sup>६</sup>†<sup>६</sup>; ६, ४, ३<sup>६</sup>†<sup>६</sup>; †आपश्रौ  
१, १३, ४; ३, १८, ४××; काठश्रौ;  
†वौश्रौ ३, २३; २१<sup>६</sup>†<sup>६</sup>; भाश्रौ ३,  
१४, २<sup>६</sup>†<sup>६</sup>; माश्रौ ५, २, १५, २<sup>६</sup>†<sup>६</sup>;

वाश्रौ १, १, ५, २<sup>६</sup>†<sup>६</sup>; हिश्रौ २,  
८, १<sup>६</sup>†<sup>६</sup>; -प्यान् शांश्रौ ३, २०,  
४<sup>६</sup>†<sup>६</sup>××; आपश्रौ; -प्याय या ६,  
२६; -प्ये काग ४१, १८<sup>६</sup>†<sup>६</sup>; पा ४,  
२, १२९; ५, ३, ९८; पावा ५, ३,  
९८, -प्येभ्यः शांश्रौ १, ४, ५××;  
आपश्रौ; -†प्येषु आश्रौ १, ३,  
२३; ६, ३, २२; शांश्रौ; -प्यैः  
आपश्रौ २४, ५, ३<sup>६</sup>†<sup>६</sup>; हिश्रौ २१,  
३, ३<sup>६</sup>†<sup>६</sup>; आपघ १, १७, ५; २०,  
१५; हिघ.

मनुषी- पा ४, १, ४१; पावा  
४, १, ६३<sup>६</sup>.

१मानुष्य<sup>1</sup>- -प्यम् आमिष्ट २,  
६, ७ : ३; -प्याः वाघ २, ३९;  
-प्यान् अप १, ६, ७; -प्ये कप्र  
३, ३, ५.

मानुष्यक- पा ४, २, ३९.

मनुष्य-कक्ष<sup>1</sup>- -क्षः या २, २, ६, १०.

†मनुष्य-किल्बिप- -पात् आपश्रौ  
७, २१, ६; वौश्रौ ४, ७ : २६;  
भाश्रौ ७, १६, १३; हिश्रौ ४, ४,  
४४.

†मनुष्य-कृत- -तस्य आश्रौ ६, १२,  
३; शांश्रौ.

मनुष्य-ना(व>)वी<sup>1</sup>- -वीः  
आपश्रौ ४, १०, ४; भाश्रौ ४, १५,  
३; वैश्रौ ६, १२ : ८; हिश्रौ ६,  
३, २.

†मनुष्य-ज,जा<sup>1</sup>- -जः काग २५,  
२२<sup>६</sup>; -जा<sup>१</sup> आमिष्ट १, १, ४ :  
३८; हिष्ट १, ८, ४; वैष्ट १, १२; ४२.

मनुष्य-जा- -जा. <sup>१</sup> आपमं १, ३, १;

पाग १, ४, १६; आमिष्ट.  
मनुष्य-जात- -तस्य गौघ ८, २;  
-तानि या १०, २९; ३१.

मनुष्य-जाति- -तेः पा ४, १, ६५.

मनुष्य-जार- -रः या ३, १६.

मनुष्य-तत्स्थ- -स्थयोः पा ४, २,  
१३४; पावा ४, २, १००; १३०;

मनुष्य-तस्(ः) वाधूश्रौ २, ८ : ४;  
वाश्रौ १, ३, ७, २०<sup>६</sup>†<sup>६</sup>.

मनुष्य-ता- -ताम् कप्र २, १०, ११.

?मनुष्य-तीर्थो( र्थ-उ )च<sup>०</sup>- -चम्  
याशि १, ५३.

मनुष्य-धर्म- -र्मैः मीत् ३, ४, १;  
६, ७, २६; ३३.

मनुष्य-धृत्- -०धृतः या १२, ४०.

मनुष्य-नामन्- -म या ३, १५; ४,  
२; १०, २२; -मानि निघ २, ३;  
या ३, ७; -मनः पा ५, ३, ७८.

मनुष्य-पूर्ण-पिटक- -कस्य अप १,  
३२, २.

मनुष्य-प्रकृति<sup>१</sup>- -तीनाम् आःध १,  
११, ३.

मनुष्य-मिथुन- -नौ या ७, २९.

मनुष्य-मृग-हस्य( र्ति-अ )ध-वृक्षा-  
(क्ष-अ)श्म-पय-वेरमन्- -श्मसु.  
अप ५८<sup>३</sup>, १, १०.

मनुष्य-यज्ञ<sup>१</sup>- -ज्ञः आग ३, १, २; ३;  
वौग २, ९, ६; भाग ३, १५ : ९;  
वैग १, १ : ६; ६, १७ : १; ८;

वौघ २, ६, १; -ज्ञम् वौघ २, ६,  
५<sup>६</sup>†<sup>६</sup>; -ज्ञाय वैग ३, ७ : ७; -ज्ञै  
वैघ २, १२, १; -†ज्ञेन आमिष्ट  
२, ६, ५ : १७; वौग २, ९, १५;

a) पाभे. पृ १९२९ ० द.। b) =कालपरिमाणविशेष-। c) पाठः?। अपु २१९, २५ मनुमन्तारम् इति। d) वैष १ द.। e) पाभे. वैष १, २४४६ ६ द.। f) वैष १, २४४६ t द.। g) पाभे. वैष १, २४४७ ० द.। h) पागम. Kielhorn प्यी- इति। i) इदमादयर्थे अण् प्र.। j) उप. =शरीरावयव-। k) =मन्त्र-विशेष- (वृ. छदसः)। l) उप. <√जन्। m) तपा. ञः<>जाः इति पाभे.। n) पाभे. वैष १, २४५० f द.। o) र्थम् ष >[आर्षसंघना] यनि.। p) वस.। q) =पद्महायज्ञाऽन्यतम-।

भाग ३, १५: २६.  
 मनुष्य-यशस- -सेन ऋषौ १४,  
 ५: १; ६.  
 मनुष्ययशसिन्- -सी ऋषौ १४,  
 ५: २; ७.  
 मनुष्य-रथ- -थेन वाधूश्री ३, १४: १.  
 मनुष्य-राजर्- -ज्ञाम् निसू ७, ५:  
 ३६.  
 मनुष्य-लोक- -कम् वीश्री १७,  
 ५०: १८; २९, १३: ७; -के  
 आपश्री २३, ११, १४; आश्र ४,  
 ४, ४.  
 मानुष्यलोक- -कम् अप्राय  
 ३, ८.  
 मनुष्यलोक-काम- -मः आपश्री  
 १०, ५, ५; -मस्य आपश्री  
 १४, ६, १०; वीश्री १७, १२:  
 ७; हिश्री ७, १, २९; ९, ८, १७.  
 मनुष्य-वत् अप ६४, ५, १०; ६, ३;  
 या १, २; ८, १३.  
 मनुष्य-शिरस- -रसः आपघ १,  
 १७, ३९; हिध १, ५, ७०.  
 मनुष्य-प्रयुक्त- -क्तानि आपश्र १,  
 १७; वीश्र १, ३, ७.  
 मनुष्य-संभुक्त- -क्तम् वीध १, ६, १५  
 मनुष्य-साक्ष्य- -क्ष्ये निसू ३, ८: २१  
 मनुष्य-स्तुति- -तिम् गोग्र ३, ५,  
 २६.  
 मनुष्य-स्त्री-कूप-क्षेत्र-वापी-  
 -पीनाम् विध ५२, ६.  
 मनुष्य-स्थ- -स्थे पावा ४, २,  
 १००.  
 मनुष्य-हित- -तः या १४, ३६.

मनुष्या(व्य-अ)धम- -माय कौसू  
 ६३, २.  
 ✓मनुष्य मनुस्- द्र.  
 मनुष्य-कक्ष- प्रश्र. मनुष्य- द्र.  
 मनुष्यत्- -व्यत् अप्रा ३, ४, १;  
 शौच ४, ६५.  
 मनुष्यतत्स्थ- प्रश्र. मनुष्य- द्र.  
 मनुष्वत् मनुस्- द्र.  
 मनुष्वत्- -व्वत् या ८, १३६.  
 मनुष्य- -नुषः आश्री ३, ७, ५; ८,  
 १, ९; ९, ५, १६; शाश्री ५, १६,  
 ६; १८, २३, ११; आपमं १, ६,  
 १२<sup>d</sup>; काश्र २६, १२<sup>d</sup>; या ३, ७;  
 ८, ५६; १२६.  
 मानुष- पाग ५, १, १२४;  
 -मं पाश्री ५, १, ४, १२; या  
 १४, ३६; -मः आश्री १, ३,  
 २३<sup>e</sup>; ऋश्री १, ६, १४; ४,  
 ६, ९<sup>f</sup>; काश्री; माश्री १, ८,  
 ३, ६<sup>g</sup>; वाश्री १, ६, ४, १५<sup>h</sup>;  
 द्राश्री ४, ४, १३<sup>i</sup>; १२, १, २३<sup>i</sup>;  
 १५, ३, ६<sup>j</sup>; लाश्री २, ४, ६<sup>j</sup>; ४,  
 ९, १६<sup>j</sup>; ५, ११, ६<sup>j</sup>; वाघ १,  
 २९; ३५; विध १०, ११; ११,  
 १२; १२, ८; १३, ७; श्रुप्रा ३,  
 १२९<sup>k</sup>; -पम् आश्री ९, ३, १२;  
 शाश्री; -पस्य हिश्री १०, १,  
 १८; वीश्र ८: ८; ऋप्रा ८,  
 ४७<sup>k</sup>; -याः आश्री १, ९, ५<sup>k</sup>;  
 शाश्री; -पाणाम् कौसू १०६, ७<sup>k</sup>;  
 अप ७०<sup>l</sup>, ११, १४; -मं पाणि  
 वीश्री १७, ३९: २४; आश्रिय  
 १, ३, २: ५; अप ७०<sup>l</sup>, १२, २६;

वीश्र १, ३, ८; -मं पात् शाश्री  
 २, १४, २; १५, ५; आपश्री;  
 -पान् आपश्री ७, १३, ८<sup>m</sup>;  
 वीश्री ४, ५: १८<sup>m</sup>; भाश्री ७, १०,  
 ८<sup>m</sup>; वैश्री १०, १०: ११<sup>m</sup>;  
 हिश्री ४, ३, १९<sup>m</sup>; द्राश्री; या  
 १२, २४<sup>n</sup>; -पे आश्री ६, ४,  
 १०<sup>n</sup>; शाश्री ९, ११, १<sup>n</sup>;  
 काश्री; -वेण आश्री ९, ३, १२;  
 शाश्री १५, २७, १; वीश्री;  
 -मं पाश्री ३, ७, १०;  
 ५, १४, ५; काश्री; -पेपु  
 वाश्री १, ३, १, ३<sup>o</sup>; अप ५०,  
 ९, ६; -पेः अप ७०<sup>o</sup>, २३, १०;  
 -मं वीश्री ७, ९: ५; माश्री  
 २, ३, ६, १७.

मानुषी- -मं पाश्री  
 २, ४, ६<sup>p</sup>; माश्र १, २२, ११<sup>p</sup>; वाश्र  
 ५, ३०<sup>p</sup>; गोग्र; -मं पाश्री  
 ३, १३, १२; शाश्री; आपमं २,  
 १७, २६<sup>q</sup>; आश्र १, १४, ७<sup>q</sup>;  
 पाश्र १, १५, ८<sup>q</sup>; हिश्र २, १६, ८<sup>q</sup>;  
 -पीणाम् वीश्री ९, ८: १९<sup>r</sup>;  
 अप ७०<sup>r</sup>, ११, २६; -मं पाश्री  
 शाश्री ८, २२, १; वीश्री; -पीम्  
 आपश्री १०, १२, ९; २३, १४,  
 २; भाश्री; -मं पाश्री ४,  
 ५, ३; भाश्री ४, ६, ६; हिश्री  
 ६, २, १; -प्याम् कौसू ९३, ९८  
 मानुष-पशु-विक्रयिन्-  
 -चिणः शंघ २०१.  
 मानुषा(प-अ)मानुप-  
 प्रभव- -वाः अप ७२, ३, ८.

a) = मस्य-विशेष-। वस.। b) वैप १, २४४८ p द्र.। c) वैप १ द्र.। d) पाभे. वैप १, २४३७।  
 द्र.। e) वैप १ निर्दिष्टानां समावेशः द्र.। f) पाभे. वैप १, २४४७ e द्र.। g) पाभे. वैप १, २४४९ g द्र.।  
 .h) ष्वाः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. पाभे.)। i) पाभे. वैप १, २४४९ ० द्र.। j) पाभे. वैप १, २४५० f  
 द्र.। k) = सपा. आश्र २, ३, ३। कौश्र ४, ४, ९ शांश्र ४, १८, १ पाश्र २, १४, ४ माश्र २, ७, १ तु चारुणीः इति  
 पाभे.। l) पाभे. पृ १८२२ ० द्र.।

मानुषा(प-अ)स्थि- स्थि  
 वाघ २३, २४.  
 २मानुष्य- पा ५, १, १२४;  
 -प्यम् विध ५८, ४.  
 ✓मनुष्य<sup>६</sup>, मनुष्यति अप ४८, १९<sup>१</sup>.  
 मनुष्य-वत्<sup>७</sup> काश्रौ ३, २, ७; आपश्रौ;  
 पावा १, ४, १८.  
 मनो-गत- प्रभृ. ✓मन् द्र.  
 मनोता<sup>८</sup> -ता आश्रौ ३, ४, ७; ४,  
 १२, २<sup>१</sup>; शांश्रौ; -ता: वौश्रौ  
 १०, ५९ : ५; ११, १३ : ७x५;  
 -ताम् आश्रौ ३, ४, ६; वौश्रौ  
 १९, ५ : १०; -ताया: आपश्रौ  
 १९, १३, १५; काठश्रौ ६५; वौश्रौ  
 १९, ५:१०; हिश्रौ २३, २, ४७;  
 -तायाम् मासू १०, ४, ४१;  
 -तायै आश्रौ ३, ६, १<sup>१</sup>; शांश्रौ;  
 -त्ते वौश्रौ १२, १६:१९; १८:२२  
 मनोता-काल- ल्हे आपश्रौ १९,  
 १, २; हिश्रौ २३, १, ४४.  
 मनोता-त्व- त्वम् वाधूश्रौ ४, ६७ :  
 ११.  
 मनोता(ता-आ)दि- दि आश्रौ ५,  
 १७, ४; शांश्रौ ८, १, ९.  
 मनोतादि-पशु- -शुना शांश्रौ  
 १४, १०, २१.  
 मनोता-प्रभृति<sup>९</sup> -तिना वौश्रौ ८,  
 १२:१; १७, २२:११; २५, २३ .  
 ४; -तिभि: वौश्रौ १७, ३७ : ५.  
 मनोता-चसा-होम- मी काश्रौ ८,  
 ८, ३६.  
 मनोता-सूक्त- -क्तम् शांश्रौ ५,  
 १९, १३; माश्रौ ५, २, ८, २.

मनोत्<sup>१०</sup> -ता शांश्रौ ५, १९, १३<sup>१</sup>;  
 वाधूश्रौ ४, ५ : १७.  
 मनो-दुष्ट- प्रभृ. ✓मन् द्र.  
 ?मनोमापायनसहपरिसुन्नियोज-  
 सहान्तौ अप १, ७, १.  
 मनो रम- प्रभृ. ✓मन् द्र.  
 मनोर्कच्- मनु- द्र.  
 मन्तवै प्रभृ., १मन्तु ✓मन् द्र.  
 २मन्तु<sup>११</sup> - [ >मान्तव्य- (>मान्त-  
 च्यायोत् >] नी-) पा. यक.]  
 पाग ४, १, १०५; १८.  
 मन्तु-, मन्त्र- प्रभृ. ✓मन् द्र.  
 मन्त्रित<sup>१२</sup> - पाग ४, १, १०५; २,  
 १११; -ता: वौश्रौ प्र ४१ : १७.  
 मान्त्रित्य- पा ४, १, १०५.  
 मान्त्रित- पा ४, २, १११.  
 मन्त्रिन्- प्रभृ. ✓मन् द्र.  
 ✓मन्थ्, मन्थ- प्रभृ. ✓मथ् द्र.  
 मन्थर- (>थी- पा.) पाठभो २,  
 ३, ३८; पाग ४, १, ४१.  
 मन्थाकक<sup>१३</sup> -क: आपमं २, १६, ८<sup>१</sup>;  
 मन्थान- प्रभृ. ✓मथ् द्र.  
 ✓मन्द् ✓मद् द्र.  
 १मन्दर- पाठभो २, ३, ३८.  
 २मन्दर- (>र-कन्थ-) मडर- टि. द्र.  
 मन्दाक- पाठवृ ४, १३.  
 ✓मन्दाय ✓मन्द् द्र.  
 मन्दार- (>मान्दार्य- पा.) पाठवृ  
 ३, १३४; पाग ४, २, ८०.  
 मन्दारु- पाठवृ ३, १३४.  
 मन्दिन्- ✓मद् द्र.  
 मन्दिर- पाठ १, ५१; -रम् अप ३६,  
 २९, १<sup>१</sup>.

मन्दिष्ट- ✓मद् द्र.  
 मन्दीर<sup>१४</sup> -रस्य काश्रौ १३, ३, २६<sup>१</sup>.  
 मन्दु-, मन्द्र- प्रभृ. ✓मद् द्र.  
 मन्द्रित<sup>१५</sup> - (>मान्द्रित्य- L>°त-)]  
 मन्धातक<sup>१६</sup> - > मान्धातकि-  
 (>मान्धातकायन- पा.) पाग  
 २, ४, ६१.  
 १मन्धात<sup>१७</sup> -ता आपश्रौ २४, १३, ३;  
 अप ४८, ८५; निघ ३, १५५.  
 -तारम् आश्रौ १२, १२, ४<sup>१</sup>.  
 मान्धात्र- -०त्र आश्रौ १२, १२, ४;  
 आपश्रौ २४, ७, १२; ८, १.  
 मन्धुक<sup>१८</sup> ->मान्धुक- -क: आपश्रौ  
 १७, १४, ८; -कम् वौश्रौ १४,  
 १८ : २; ३.  
 मन्मथ- पाग ६, ३, १०८<sup>१</sup>.  
 मन्मन्- ✓मन् द्र.  
 मन्मन- पाठभो २, २, १९२.  
 मन्थ- ?मन्थम्, मन्थमान- ✓मन् द्र.-  
 मन्थ<sup>१९</sup> - पाठभो २, ३, १; -न्या याशि.  
 २, ७२<sup>१</sup>; नाशि २, २, ३.  
 मन्थु-, मन्थु-डैवत- प्रभृ. ✓मन् द्र.  
 मन्वन्तर- मनु- द्र.  
 मन्वान- ✓मन् द्र.  
 मन्विद्ध- मनु- द्र.  
 म-पूर्व- म- द्र.  
 ✓मभ्र पाधा. भ्वा. १२. गतौ.  
 मम, मम-क- श्रत्मद्- द्र.  
 १ममध्यमे अप्राय ४, ३.  
 ममापताल- पाठ ५, ५०.  
 ✓मथ् पाधा. भ्वा. श्रात्म. गतौ.  
 मय<sup>२०</sup> -> मय-स्वर-सूकर-वानरा(र-अ)  
 धिरुड- -ड: अप ६८, ४, ३.

a) धा. हिंसायां वृत्तिः । b) वैप १ द्र. । c) = देवी, ( मंनोत्- [क्र ६, १, १] शब्द-वती-) ऋन्-  
 आहुति-? । d) वस. । e) वैप १, २४५१ ० द्र. । f) = ऋषि-विशेष- । g) = मन्द्रित- इति पागम. ।  
 h) बहु. <मान्त्रित्य- । i) पाभे. पृ १९०३ d द्र. । j) नाप. । k) पाभे. पृ १८९९ g द्र. ।  
 l) सपा. आपश्रौ २४, ७, १२ मान्धातारम् इति पाभे. । m) वैप १, २२६३ h, i, j द्र. । n) तु. पागम. ।  
 o) श्रुतनासिकसंज्ञाविशेष- । मथ्या- इति गृहो. (तु. संत्कर्तुः टि. [२, ७३]) ।

मयट- पाठवृ ४, ८१.

मयन्त<sup>अ</sup>- न्तम् माश्रौ ६, २, १, ६<sup>०</sup>.

मयम् शंघ ११६ : ५७.

मयस्(वप्रा.)<sup>अ</sup>- -यः आश्रौ ३, ८, १;  
४, १२, २<sup>०</sup>; शाश्रौ ७, १८,  
१-५<sup>०</sup>××; आपश्रौ १४, ११,  
२××; हिश्रौ १०, ६, ९××;  
आपमं.

मयस्-कृत्<sup>०</sup>- -कृतः वौश्रौ १५,  
१३ : १४; १४ : १०.

मययो-भव<sup>०</sup>- -वाय<sup>०</sup> आपश्रौ १०,  
२२, १२<sup>०</sup>; कागृ २५, ४२; जैगृ  
१, २१ : २९.

मययो-भु<sup>०</sup>- -भु कौसू ११७, ४<sup>१</sup>;  
या १०, ३५; शैशि ५५; -भुः  
हिश्रौ १२, ६, ६<sup>१</sup>; -मृ<sup>०</sup>भृन्,  
-भृनि या १४, २५.

मयो-भुव<sup>०</sup>- -मं<sup>०</sup> आपश्रौ ५,  
१३, ८; वैश्रौ १, १२ : १०;  
हिश्रौ ३, ४, २२<sup>०</sup>।

मययो-भू<sup>०</sup>- -भुवः आश्रौ २, ९,  
९××; आपश्रौ; वैश्रौ १६, १९ :  
२<sup>०</sup>। आगृ २, १०, ६<sup>०</sup>; शुअ २,  
२२<sup>०</sup>; या ९, २७<sup>०</sup>; -भुवा आश्रौ  
१, ९, १; शाश्रौ १, १४, ५;  
वौश्रौ ५, ८ : ७; अप्राय ६, १;  
-भूः आश्रौ २, ९, १०<sup>०</sup>; ३, ७,

६; ४, ७, ४; शाश्रौ; माश्रौ १,  
६, ४, २५<sup>०</sup>; वाश्रौ १, ५, ५,  
८<sup>०</sup>; कौगृ ३, ५, १<sup>०</sup>; शांगृ ३, ८,  
३<sup>०</sup>; पागृ ३, १, ४<sup>०</sup>; जैगृ १,  
२४ : ५<sup>०</sup>; अश्र ५, १७<sup>०</sup>।

मयायोभव<sup>०</sup>- -वाय<sup>०</sup> आपमं १  
३, १०; पागृ १, ८, १; आगिगृ  
१, ५, ४ : ४३; वौगृ १, १, २८;  
भागृ १, १७ : ३; वागृ १४, २३;  
हिगृ १, २१, १.

मयायोभव<sup>०</sup>- -व्याय<sup>०</sup> आगृ  
१, ७, १९; कौगृ १, ८, २८.

मयि<sup>०</sup> आश्रौ १, १२, ३६; माश्रौ ३,  
१, २७.

मय्यु<sup>०</sup>- पाठ १, ७; -युः वौश्रौ १५,  
२३ : १४; -युम् वौश्रौ १०,  
३४ : २.

मय्यूख (, प<sup>०</sup>)<sup>अ</sup>- पाठ ५, २५;  
-खः<sup>०</sup> पागृ २, ६, १०<sup>०</sup>; -मं<sup>०</sup>खाः  
अप ४८, ११२<sup>०</sup>; अश्र १०, १०;  
अप ३ : १८; निघ १, ५<sup>०</sup>;  
-खान् आपश्रौ १५, ५, ११××;  
वौश्रौ; -खे आश्रौ ९, ९, ८;  
काश्रौ २६, ५, ८; काश्रौसं ३५ :  
१२; १३; १४; कौसू ४०, १६;  
-खैः वौश्रौ ६, २४ : ३६<sup>०</sup>; -खौ  
हिश्रौ २४, ६, १२.

मयूत- पाठमो २, २, १४८.

मयूर<sup>०</sup>- पाठ १, ६७; पाग ६, ३,  
१०८<sup>०</sup>; -रः लाश्रौ ८, १२, ६; सु  
२८, १; माशि १, ९; नाशि १, ५,  
३; -रम् शंघ २२३; -रस्य  
अप ७०<sup>०</sup>, ३, ४; -राः अप २०,  
२, ३; ७१, ३, २; -राणाम्  
वेज्यो ४; -रे वौश्रौ २, ५ : २२.  
मयूर-कर्ण<sup>०</sup>- पाग २, ४, ६९; ४, १,  
११२.

मायूरकर्ण- पा ४, १, ११२.

मयूर-कोकिला(ल-आ)दि- -दीनाम्  
अप ६४, ४, ६.

मयूर-गल-> °ल-शङ्खे(ङ्ख-इ)न्दु-  
मुक्ता-गोक्षीर-पाण्डुर<sup>०</sup>- -राः  
अप ६३, ४, ७.

मयूर-चक्रवाका(क-आ)दि->  
°दि-हंसकारण्डवादि- -दिभिः  
अप २१, ४, २.

मयूर-पुच्छा(च्छ-अ)नुग(त>)ता-  
-ता अप ५८<sup>०</sup>, ४, ८.

मयूर-रोमन्- -मभिः भागृ २, २८ :  
८<sup>०</sup>.

मयूर-व्यंसक- °क-प्रिय<sup>०</sup>- पाग २,  
१, ७२.

मयूर-हंसा(स-आ)दि- -मृदु-  
स्वर<sup>०</sup>- -राणाम् माशि ४, ६.

a) वैप १ द्र. । b) पाभे. वैप १, २४५३ h द्र. । c) पाभे. वैप १, २४५३ k द्र. । d) पाभे.

वैप १, २४५३ m द्र. । e) नाप. (चर्म-कार-) । पूप. = चर्मन्- । f) उस. उप. भावे प्र. । g) पाभे.

वैप २, ३खं. मायोभवाय तैत्रा ३, ७, ७, ११ टि. द्र. । h) मायो<sup>०</sup> इति ०. शोधः । i) पाभे. वैप १, २४५३ p  
द्र. । j) पाभे. वैप १, २४५४ b द्र. । k) विप. । उस. उप. √भू+कः प्र. उसं. (पावा ३, २, ५) ।

l) पाभे. वैप १, २४५४ c द्र. । m) ष्वः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ.) । n) °भवः इति पाठः ?  
यनि. शोधः (तु. पूर्वोत्तरस्थलम्) । o) पाभे. वैप १, २४५४ h द्र. । p) = ऋषि-विशेष- । q) पाभे. वैप १,

२४२४ a द्र. । r) वैप २, ३खं. द्र. । s) प्यन् प्र. । t) पाठः ? महि इति शोधः (तु. पृ १९०८ d) ।

u) पागृ. काश्रौसं ३५ : १२; १३ पाठः । v) नाप. ( अग्नि-भेद- [वैतु. जयरामः < मयु- + √सो इति] ।

w) पाभे. वैप २, ३खं मरुकः मंत्रा १, ७, १ टि. द्र. । x) = रश्मि- । y) वैतु. पाका. < २मही- + √रु ।  
z) द्रस. > उपमानसमासः ( पा २, १, ५५ ) । a<sup>१</sup>) भोजः इति पागम. । b<sup>१</sup>) द्रस. > वस. >

वस. > कस. ।

मयूरा(र-अ)टाल(?) -> ऋटाल-  
पट्टमे( अ-इ)ट्टु-काश-नील-  
निभ-भानि अप ६१, १, १२.  
मयूरा, र्थ(र, री-अ [पावाग.])ण्ड-  
पावा ६, ३, ४१.

२मयूर<sup>b</sup>-रा: वीथौप्र ३१: ७.

मयोभु-प्रमृ. मयस्-द्र.

मस्-√मृ द्र.

१म-र-म-द्र.

२, ३मर-, मरक-√मृ द्र

मरकत<sup>c</sup>-> षत-त्विप्- त्विपा  
जैथ्रीका १.

मरण-, मरत-√मृ द्र.

मराय<sup>d</sup>-य: वीथौ १८, ४८: १९.

मराय-कृत<sup>e</sup>-तम् वीथौ १८, ४८:  
१९; २३, १८: ३९; २६, ३३: १६.

ममरायु<sup>f</sup>-यु या १३, ५.

मराल-पाठमो २, ३, १००.

मरिच-पाठमो २, २, ७७.

मरिष्यत्-√मृ द्र.

मरीचि, ची<sup>g</sup>-पाठ ४, ७०; पाग ४,  
१, ९६; -कचय: आग्रिगृ १, ५,  
२: ३९; वैगृ १, १८: २; अप  
४८, ११२; -चि: वृदे ५, १४३;  
अग्र ७, ६३; -चिम् अप ४३,  
३, १९; भाशि ४५; -कची:  
काथौ १५, ४, ३८९; आगृ २,  
४, १४; पागृ ३, ३, ६; मागृ २,  
८, ६; -चीनाम् हिथ्री १४, ४,  
३८; -चे: अप ५२, १६, २;  
-च्य: सु ८, ३.

मारीच-च: ऋग्र २, ८, २९;  
वृदे ५, १४३; साग्र.

मारीचि-पा ४, १, ९६.

मरीचि-कश्यप-पौ शंघ ११६: ४३.

मरीचि-प<sup>h</sup>-पा: निघ १, ५;

-पेभ्य: आपथौ १२, ११, १;

वीथौ ७, ५: ४५; ६: ३१;

माथौ २, ३, ३, १९; वैथौ १५,

१२: ९; हिथ्री ८, ३, २२.

मरीच्या(चि-२आ)घ-घा: कप्र  
१, १०, ८.

मरीमृश-√मृष्ट द्र.

मरु<sup>i</sup>-पाठ १, ७; पाग २, ४, ३१;

-रु: कप्र ३, १०, १५.

मरु-पिशाच-च: शंघ ३७७: १९.

मरुच्छन्द-मरु-द्र.

मरुत्<sup>j</sup>-पाठ १, ९४; पाग ४, २,

८६; ५, २, ६१<sup>k</sup>; ३, ११७<sup>l</sup>; ४,

३८; ८, २, ९; -कृत् अप ४८,

७९<sup>j</sup>; ९१<sup>k</sup>; निघ १, २<sup>k</sup>; ३, ७<sup>k</sup>;

-रुत: आथौ २, ११, १५××;

शाथौ; सु २२, ३; २६, १; २;

कागृ ५, १०; ७, २; अप १, ४,

१<sup>l</sup>; ४८, ९६<sup>m</sup>; शंघ ११६:

५५; ४०९, गौघ २५, २; अग्र

२०, १३७<sup>n</sup>; मनिघ ३, १८<sup>m</sup>;

या ३, १५; ४, १५<sup>o</sup>; ५, ५<sup>o</sup>;

६, १६<sup>o</sup>; ७, २३; २४<sup>o</sup>; ९,

३<sup>o</sup>; २६; ११, १३<sup>o</sup>; १४, ३४;

-कुरुत: आथौ २, ११, १४××;

शाथौ; -कृताम् आथौ ६, ७,

२; शाथौ; निघ १, १५;

-कृताम् आथौ ३, ८, १<sup>o</sup>; -रुते

चाग्र ४१: १३<sup>o</sup>; -रुत्सु वृदे

५, ७२; १०३; या ११, ५०<sup>o</sup>;

-कृत्भि: आथौ २, ११,

१२<sup>o</sup>××; शाथौ; -रुद्भ्य:

आथौ २, १८, ३××; शाथौ.

मारुत्<sup>p</sup>-पा ५, २, ६१; ३.

११७; ४, ३८; पावा ५, ४,

३६; -त: शाथौ १४, ७, ४;

काथौ; सु ४, २; पाशि ७; ९;

-तम् आथौ २, १८, १६<sup>o</sup>;

शाथौ; लाथौ ७, १, १<sup>o</sup>; निस्

९, ११: २७<sup>o</sup>; अप ४१,

५, ७; पाशि ६; -तस्य आथौ

८, ४, १२; शाथौ; चाग्र २:

१७<sup>o</sup>; -ता: शाथौ १६, ९,

२९; आपथौ; -न्ता: वीथौ

११, १०: २<sup>o</sup>; -तात् आथौ

९, १०, १६; वीथौ ५, २: १८;

३: ११; २४, १०: १२; -तान्

काथौ १८, ४, २३; २०, ८, ३०××;

आपथौ; -तानाम् कौसू ३०, १२;

-तानि कौसू २६, २४; वृदे ३,

१२१; ५, ३७; ६, ३; -ताय आथौ

२, ११, १४; वीथौ ५, १: २१;

-ते आथौ ८, ८, ५; लाथौ ७,

१, ११<sup>o</sup>; कौसू; -तेन शाथौ

१३, १२, ३; काथौ २५, १२,

१६; आपथौ; कौसू ४०, ७<sup>o</sup>;

वीथ १, ५, ५४; विघ २३, ४१;

-कृतेभ्य: माथौ १, ८, ६, २२;

अप ४३, १, १८; -तै: आपथौ

१७, १६, १७; वीथौ १०, ५२:

३२; माथौ; कौसू ४०, ७; -तौ

काथौ १८, ४, १७.

मारुती-न्ती शाथौ ३, १४,

a) तु. पागम. । b) = ऋपि-विशेष- । c) = मणि- । d) = एकाह-विशेष-, ज्यायो-राशि- (तु. पृ १३४५ j) । e) विप. (धान्यराशि-) । f) वैप १ द्र. । g) = निर्जल-प्रदेश- । h) मरुत्वत्- इति पाका. । i) = धान्युपजीविसंघवितेष- (तु. वासमा. ) । j) = रूप- । k) = सुवर्ण- । l) = नृपशिरनक्षत्र-देवता- । m) = ऋत्विज्- । n) पाठ: ? मारुत: इति शोध: (तु. सा [क ८, ९६, १४]) । o) वैप १ निर्दिष्टानां समावेश: द्र. । p) = साम-विशेष- ।



४; १५, १४, १३; काश्रौ ५, ४, २, १;  
 १५, ९, १४; आपश्रौ; ऋअ २,  
 १, १५; १३९; वृदे ४, ९; ५,  
 ३८; शुअ १, २१२; २१३; साअ  
 १, १३५; १४८; अअ १, २०१<sup>a</sup>;  
 १३, १; -ती: वीश्रौ १८, ११:  
 ३; २३, १८: १२; -तीभि:  
 आश्रौ १०, २, २९; -तीभ्याम्  
 वीश्रौ २३, ३: ४; -तीम् आश्रौ  
 २, ११, १५; काश्रौ: -रुत्य:  
 आपश्रौ २२, २०, १८; हिश्रौ;  
 अअ २०, ७०<sup>a</sup>; -त्या आश्रौ २,  
 ११, १५; आपश्रौ १८, २१,  
 १४; वीश्रौ; -त्या: काश्रौ ५,  
 ५, २२; आपश्रौ: मीस् ११,  
 २, ३७<sup>b</sup>; -त्याम् काश्रौ ५,  
 ५; ३; आपश्रौ ८, ६, १२;  
 १७; भाश्रौ; -त्यै वीश्रौ ५, ८:  
 २९×४; भाश्रौ; -त्यौ वृदे ५,  
 ११७; साअ १, २५७; २५८;  
 ४०४; ४४४; ४४५.

मारुती-वर्जम् काठश्रौ  
 ३१; वाश्रौ १, ७, २, १५.

मारुती-सप्तम<sup>c</sup>-  
 मानि काश्रौसं २९: २.

मारुत्या(ती-आ)  
 श्रावण-प्रभृति- -ति वीश्रौ २२,  
 २१: ८.

मारुत्-गण- -ण: साअ २,  
 १९७.

मारुत्-पर्जन्य- -न्याम् अम  
 ४, १५.

मारुत्-पर्यङ्क- -ङ्का: अप  
 ६५, १, ८.

मारुत्-प्रकोप- -प: अप  
 ७२, ३, ६.

मारुत्-प्रतिलोम-(ग>)  
 गा<sup>d</sup>- -गा: अप ५८<sup>e</sup>, ४, १७.

मारुत्-वारुण- -गौ आश्रौ  
 ९, २, १०.

मारुत्-वेग-तुङ्ग- -ङ्गानि  
 अप ६८, १, ४५.

मारुत्-श्रुत<sup>e</sup>- -तम् कौस्  
 ४०, ७.

मारुत्(त-अ)शन- -न: वाध  
 २७, १७; वीध ४, ५, ३०.

मारुत्(त-ऐ)न्द्र- -न्द्र:  
 वृदे ४, ४४.

मारुत्<sup>f</sup>- -ति: ऋअ २, ८, ९६.  
 मरुत्-छ(<श)द्- -द्स्य पावा  
 १, ४, ५९.

मारुत्(त्रात्यस्तोम-)<sup>g</sup> शाश्रौ १४,  
 ७०, १; ७२, १.

मारुत्(संस्तोम<sup>h</sup>-) -मम् लाश्रौ ६,  
 ४, ८; निस् ६, ११: ३५.

मारुत्(स्तोम<sup>h</sup>-) -मेन आपश्रौ २२,  
 १३, ४; हिश्रौ १७, ५, २७.

मारुत्(धेनु<sup>i</sup>-) -नु लाश्रौ ७, १, १.  
 मरुत्(प्रयति-)<sup>h</sup> आपश्रौ २२, ५,  
 १७; हिश्रौ १७, २, ४५.

मारुत्(भूति-)- -तौ द्राश्रौ २, २,  
 ३३<sup>j</sup>.

मारुत्(त-पावा ५, २, १२२.

मारुत्(पति-)- -ति: वृदे ६, ११३;  
 -०ते विध ९८, २७.

मारुत्(पर्जन्य-देवता->त्य-  
 -त्यम् अअ ४, १५.

मारुत्(मत्- पा ४, २, ८६; ८, २, ९.

मारुत्-वृत्<sup>k</sup>- पाग ५, २, ६१<sup>l</sup>;  
 -कं०व: आश्रौ ५, १४, २; ८,  
 १, १४×४; शाश्रौ; या १०,  
 ३०<sup>m</sup>; -वत् निस् २, ११:  
 १६; -वत: वाअ ३०: ७;  
 -वता कं०श्रौ ८, ७: १२; १९;  
 -वते कं०शाश्रौ ७, १५, १६; १९,  
 १<sup>n</sup>; काश्रौ; माश्रौ ५, १, १०,  
 ५<sup>n</sup>; -कं०वन्तम् आश्रौ ५, १४,  
 २; शाश्रौ; -वान् कं०शाश्रौ २, ११,  
 ८; ११३; ७, ११, २५; ८, ८,  
 २; १२, १७; ९, ७, ३१; शाश्रौ  
 या ४, ८<sup>o</sup>.

मारुत्(वी-)-ती निस् ६,  
 २: २८; -ती: आपश्रौ १४,  
 १९, ५; वीश्रौ १४, ४: २९;  
 वैश्रौ २१, ५: १०; हिश्रौ १५,  
 ५, १९; -तीषु काश्रौ २५, १३,  
 २<sup>k</sup>; माश्रौ ३, ७, १०; छस् १,  
 १०: २; -त्य: निस् २, ११:  
 १४.

मारुत्(व- पा ५, २, ६१.

मारुत्(वीय, या<sup>k</sup>- पा ४, २, ३२;  
 -य: आश्रौ ५, १४, १८;  
 -यम् आश्रौ ५, १४, २×४;  
 शाश्रौ; -ययो: वीश्रौ २१, २१:  
 ३; २२: ५; हिश्रौ ८, ६, ५;  
 १०, ४, ७७; शुअ ३, १६८;  
 -यस्य आश्रौ ५, १४, ४; ७, ६,  
 ४×४; शाश्रौ; -या: ऋअ २, १,  
 १७१; -यात् शाश्रौ ८, १४, ४;  
 ११, १०, ७; वैताश्रौ २७, ४;  
 ३६, ५; -यानाम् आश्रौ ७, ३,  
 ६; आपश्रौ २२, २७, ९; वीश्रौ;

a) रुतः इति पाठः? यनि. शोधः। b) तु. जीसं.। c) वस.। d) पस. > उस.। e) कस.

उप. नाप. (तु. सा L भू. शौ ३, १३।)। f) = ऋषि-विशेष-। g) = ऋतु-विशेष-। h) = एकाह-विशेष-।

i) = साम-विशेष-। j) = साम-विशेष-?। पृ १८७३ सत्य. भूति-> -तौ इति नेष्टम्। k) वैप १ द्र.।

l) पृ ११३४ h द्र.। m) पाभे. वैप १, २४६० b द्र.। n) पाभे. पृ १९२८ h द्र.।

-याम्याम् आपथ्री १३, ८, १;  
-याम् आथ्री ५, १४, २०;  
-याय वौथ्री ८, ४: ३०; वैथ्री  
१६, ८: २; -ये आथ्री ५,  
५, २०xx; शाथ्री; लाथ्र  
१, ४४४; ४४५; -येन आथ्री  
५, १४, १; वाथ्री ३, २,  
४, ६; -वै: आथ्री ७, ५, २२;  
आपथ्री २१, ७, १७; १७, ५;  
वौथ्री; -वौ आथ्री ७, ३, २;  
आपथ्री १३, २, ३; वौथ्री ८,  
१: २५; माथ्री.

मरुत्वतीय-ग्रह- -हस्य  
शाथ्री १४, ५३, ३.

मरुत्वतीय-ग्रहण- -णम्  
काथ्री १०, ३, ३; ७.

मरुत्वतीय-माहेन्द्र-  
-न्द्राणाम् आपथ्री २२, २७,  
१८; हिथ्री २३, ४, ३९; -न्द्रौ  
काठथ्री १२८.

मरुत्वतीय-वैश्वदेव- -वयो:  
शाथ्री ७, ९, ५.

मरुत्वतीय-होम- -मम्  
वैताथ्री २२, ३.

मरुत्वतीया(य-अ)न्त-  
-न्ते काथ्री १४, ३, १; १५,  
५, १.

मरुत्वत्-य- पा ४, २, ३२.

मरुत्वद्-जनुग्रह- -ह: निस् ६,  
१३: ५.

मरुत्वत्-सखि- -खा शाथ्री ८,  
१६, १; आथ्र ३, ५, ७; कौथ्र  
३, ७, १०; शाथ्र ४, ५, ८; अशां  
१०, १; ऋप १, ४०, १.

मरुत्-स्तोत्र<sup>०</sup>- -त्र: शाथ्री ८, १६,  
११.

मरुत्-स्तोम<sup>०</sup>- -म: काथ्री २२,  
११, ११; -मे वैताथ्री ३९,  
१८; -मेन आपथ्री २२, १०,  
१९; हिथ्री १७, ४, ३८; लाथ्री  
९, ४, २५.

मरुद्-जङ्गिरस- -रस: काथ्र ५, २;  
-०रस: काथ्र ८, २.

मरुद्-लादि- -दीन् अथ्र ७, ३३.

मरुद्-गण- -ण: वृदे ५, ६७;  
-णम् वृदे २, १४४; -गानाम्  
काथ्र ८, ६.

मरुद्ग(ण>)जी<sup>d</sup>- -जी  
अशां १६, १; -णीम् अशां  
१७, ५; -ण्याम् अशां १८-१९,  
७.

मरुद्गण-प्रधान, ना<sup>०</sup>- -न:  
वृदे २, १४१; -ना वृदे २, १४३.

मरुद्गणप्रधान-त्व- -त्वात्  
वृदे २, १४४.

मरुद्गण- -ण: शाथ्री ८,  
१६, ११.

मरुद्-वृष, धा<sup>०</sup>- -थ्र: शाथ्री ८,  
१६, १; काथ्री ५, १३, ३; ऋप्रा  
७, ३२; -धा: या ९, २६७;  
-०धे या ९, २६९.

मरुद्बृषा(ध-आ)दि- -दीनाम्  
पावा ६, २, १०६.

मरुत्-त- मरुत्-द्र.

मरुत्- -त्त: शाथ्री १६, ९, १४;  
-त्तस्य शाथ्री १६, ९, १६.

मरुत्-पति- -प्रत्. नलत्-द्र.

मरुत्व- (>मरुत्व-न्त्- पा.) पाग ४,

२, ८६.

मरुत्क- पाठ ४, ३९.

मर्क<sup>०</sup>- पाठ ३, ४३; -मर्क: काथ्री  
९, १०, ४; १०; आपथ्री; आपमं  
२, १३, १<sup>५</sup>; आमिष्ट २, १, ३:  
१३<sup>५</sup>; काथ्र ३५, १<sup>५</sup>; भाथ्र १,  
२३: ३<sup>५</sup> हिथ्र २, ३, ७<sup>५</sup>;  
-काथ्य आपथ्री १२, १५, १;  
वौथ्री ७, ६: ५१; जैथ्र १, ८: १४<sup>५</sup>  
मर्कट<sup>०</sup>- पाठमो २, २, १७; -ट:  
वौथ्री २४, ५: २१; मर्कट ९५,  
१; ३; विष ४४, ४०; -टो वौथ्री  
२, ५: ९<sup>५</sup>.

मर्कट<sup>१</sup>->मर्क<sup>१</sup>- -का: आपथ्री  
१६, १९, १३.

मर्ग<sup>१</sup>- -गो आपथ्र २०, १२.

√मर्च<sup>०</sup> पाधा. जुरा. पर. शब्दे.

मर्चयत्- √चृद् द्र.

मर्जू- पाठ १, ८१.

मर्य- √मृज् द्र.

मार्डित्- √मृद् द्र.

मर्त<sup>०</sup>- पाठ ३, ८६; -मर्त: आपथ्री  
३, १२, ९xx; शाथ्री; -मर्तम्  
या ५, १७<sup>५</sup>; -मर्ता:  
अप ४८, ७८; निष २,  
३; -मर्तास: आपथ्री ३, १२,  
१<sup>५</sup>; १२, १८, ७; माथ्री ३,  
११, १<sup>५</sup>; हिथ्री २, ६: १७<sup>५</sup>;  
आमिष्ट १, ५, ४: २०<sup>५</sup>; या  
११, १६<sup>३</sup>; ९; १४, ३०; -मर्तेषु  
आपमं २, ११, २५<sup>०</sup>; शुप्रा ४,  
१६२; भाशि ८५.

मर्त-शब्दा (व्-अ)दि-व:—

पर<sup>०</sup>- रे ऋप्रा ७, २६.

a) वस. । b) वैप १ द्र. । c) = एकाह-विशेष- । d) = शान्ति-विशेष- । e) = नदी-विशेष- ।  
f) = वृष-विशेष- । g) वैप १, २४६१ h) द्र. । h) सपा. शण्डोमकः <> शण्डाय मर्काय <> पाथ्र १, १६,  
२३ शण्डामर्कौ इति पाठे. । i) उत्तरेण संधिरार्थः । j) = अन्न-विशेष- । k) स्वार्थे कः प्र. । l) = मर्ग- ।  
m) पावा १, १, ४७ परामृष्टः द्र. । n) पाठे. वैप १, २४६३ j) द्र. । o) पाठे. वैप १, २४६२ d) द्र. । p) दत्त. > वस. ।

मर्त्य, त्र्या<sup>३</sup>- पाठना ४, १२१; पावा ५, ४, ३६; -<sup>३</sup>न्त्य आपश्रौ ८, २१, १; वीश्रौ; -<sup>३</sup>न्त्यः आश्रौ १०, २, १८; शाश्रौ १६, १६, ३; आपश्रौ; -<sup>३</sup>न्त्यम् आपश्रौ १२, ६, ५; १९, १५, ३; वीश्रौ; -<sup>३</sup>न्त्यस्य काश्रौ १०, ९, ८<sup>३</sup>; आपश्रौ ६, १७, १२; वीश्रौ; -<sup>३</sup>न्त्याः निघ २, ३<sup>३</sup>; -<sup>३</sup>न्त्यान् शाश्रौ १२, १७, १; आपश्रौ ५, १७, ४; हिश्रौ; या १३, ७<sup>३</sup>; -<sup>३</sup>न्त्यानाम् आपश्रौ १९, ३, ५; वीश्रौ १७, ३८ : १; हिश्रौ; -<sup>३</sup>न्त्याभ्यः आपश्रौ ८, २१, १; वीश्रौ ५, १८ : १९; हिश्रौ ५, ६, ४; -<sup>३</sup>न्त्याय आपश्रौ १६, १६, १; वीश्रौ; -<sup>३</sup>न्त्यासः आपश्रौ ५, ११, ६; १६, १५, ५; वीश्रौ; -<sup>३</sup>न्त्ये आपश्रौ १२, ७, १०; हिश्रौ ८, २, ९; -<sup>३</sup>न्त्येना या १४, २३<sup>३</sup>; -<sup>३</sup>न्त्येभ्यः या १२, १०<sup>३</sup>; -<sup>३</sup>न्त्येषु शाश्रौ ६, ४, ५; आपश्रौ १४, १७, १; वीश्रौ; -<sup>३</sup>न्त्यैः वीश्रौ ८, २० : १२; द्राश्रौ ६, ४, ८; लाश्रौ २, १२, ९.  
<sup>३</sup>मर्त्य-कृत- न्तम् वीश्रौ ८, २० : १२; द्राश्रौ ६, ४, ८; लाश्रौ २, १२, ९.  
 मर्त्य-लोक- -कः कप्र ३, ३, ६.  
 मर्त्य-वासिन्<sup>८</sup>- -सिनाम् कप्र २, ३, ९.  
 मर्द- <sup>३</sup>मृद् द्र.  
 मर्दल- पाठभो २, २, ९३.

मर्दित- <sup>३</sup>मृद् द्र.  
 मर्मन्<sup>३</sup>- -र्मणाम् या ९, २८; १४, ७; -र्मणि कौसू ४७, ५१; ४८, ४; विघ ७१, ७५; या ६, ३३; -<sup>३</sup>र्मणि काश्रौ १३, ३, १३; वैताश्रौ.  
 मर्म-शत- -न्तम् विघ ९६, ८६.  
<sup>३</sup>र्म(सि>)र्मा-विघ<sup>३</sup>- -विघम् अत्र ११, १०; अप्रा ३, ४, १.  
 मर्मर- पाठभो २, ३, ३५; पाग २, ४, ३१<sup>३</sup>.  
 मर्मरीक- पाठ ४, २०.  
 मर्मृज्यमान- <sup>३</sup>मृज् द्र.  
 मर्य<sup>३</sup>- पा ३, १, १२३; -र्यः अप ४८, ११६<sup>३</sup>; या ३, १५<sup>३</sup>; -र्यम् या ३, १५<sup>३</sup>; -र्याः अप ४८, ७८; निघ २, ३; या ४, २; -<sup>३</sup>र्याः आश्रौ ९, ९, ८; शाश्रौ; या ४, २<sup>३</sup>; -र्याय या २, २७<sup>३</sup>; -र्यासः उस् २, १८; -र्यैः या ४, २.  
 मर्या<sup>३</sup> वाधृश्रौ २, १३ : ३; ५; ४, ८९ : ३३.  
 मर्याकरोरपि शाश्रौ १२, १६, १<sup>३</sup>.  
 मर्यादा<sup>३</sup>- -दा आग्रिष्ट ३, २, १ : १३<sup>३</sup>; या १, ७; ४, २<sup>३</sup>; -<sup>३</sup>दाः कौसू ७६, २१; ७९, १; या ६, २७; अप्रा ३, ४, १; -दायाम् पावा ३, १, २६.  
 मर्यादा-तसः(:) या १, ७.  
 मर्यादा(दा-अ)भिधान- -न्म् या ४, २.  
 मर्यादा(दा-अ)भिविधि- -धौ पावा

१, १, १४; -ध्वोः पा २, १, १३.  
 मर्यादा-लोष्ट- -ष्टम् काश्रौ २१, ४, २४.  
 मर्यादा-वचन- -ने पा १, ४, ८९; ३, ३, १३६; पावा ३, ३, १३६.  
 मर्यादा-वर्चस्क- -स्कयोः ऋत ४, ५, ९.  
 मर्यादिन्<sup>३</sup>- -दिनोः या ४, २<sup>३</sup>.  
<sup>३</sup>मर्व् पावा. भ्वा. पर. गती.  
 मर्यण- प्रसृ. <sup>३</sup>मृषू द्र.  
 मर्या(क>)का<sup>३</sup>- -का ऋप्रा १७, २०.  
<sup>३</sup>मल पावा. भ्वा. आत्म. धारणे.  
 मल<sup>३</sup>- पाठ १, ११०; पाग २, ४, ३१;  
 -<sup>३</sup>लम् शाश्रौ १५, १७, १; आपश्रौ ६, २०, २; ७, १२, ४; २१, ६; वीश्रौ; -लाः कप्र १, १०, १०; विघ २२, ८१; २३, ४०; ५१; -लानाम् विघ ५१, २; -लानि वैघ ३, १४, ७; -ले काण्ड ४३<sup>३</sup>; ९, १३; -लैः विघ २२, ७७; २३, १.  
 मल-कर्षण<sup>३</sup>- -णम् शंघ १००<sup>३</sup>.  
 मल-ज(ल>)ला<sup>३</sup>- -लाम् अप ६८, १, १४.  
 मल-जु<sup>३</sup>- -जुः काण्ड २, ४; माण्ड १, २, ६; वाण्ड ६, ३०.  
 मल-मास- -सः काण्ड ४३ : ७; -से काण्ड ४३ : १८; ४५ : १२.  
 मल-वत्- -वति विघ ७१, २४.  
 मलवद्-वासस<sup>३</sup>- -ससः मीसू ३, ४, १८; -<sup>३</sup>ससम् आपण्ड ८, १२; भाण्ड १, २० : १०; -ससां काण्ड ३, १४; माण्ड १, २, १९;

a) वैप १ द्र. । b) शोघः पृ ३३८ p द्र. । c) उप. < <sup>३</sup>वस् [निवासे] । d) तु. पागम. ।  
 e) सत्यमित्यर्थे अन्वय. । f) पाठः ? शोघार्थं वैप १, २४६५ e द्र. । पृ २६६ स्थ. अपि, तत्रत्यं टि. च नेष्टम् ।  
 g) मर्या-(भूम्यन्त-)+ षादि-(भूम्यादि-)>द्वत्. मर्यादि->मत्वर्यायः इतिः प्र. इति दु. स्क. प्रसृ. । h) र्यायोः इत्यपि पाठः (तु. स्क.) । i) = छन्दो-विशेष- । j) = मल-मास- । k) विप. (स्तान-) । उच. । l) वस. पूष. = १मलिन- । m) वस. ।  
 वैप४-तृ-६१

वागृ ९, १९; हिगृ १, २४, ७<sup>०</sup>;  
 आपघ १, ९, १३; हिघ १ ३, १३;  
 -सा: आपगृ ८, १२; वौगृ १,  
 ७, २२; भागृ १, २०: ९; वैगृ  
 ३, ९: १.

मल-वर्जित- -ते विघ ९९, १८.

मल-संयोग-ज- -जम् शंघ १६३.

मला(ल-अ)न्धकार- -रौ वैगृ ६, ७:  
 ११.

१मला(ल-अ)पकर्षण<sup>०</sup>- -गम् शंघ  
 १००.

२मला(ल-अ)पकर्षण<sup>०</sup>- > णा(रा-  
 अर्थ>)र्या- -र्या शंघ १००.

मला(ल-अ)पोहक<sup>०</sup>- -क: वैघ ३,  
 १५, ११.

मला(ल-अ)यतन- -नम् विघ ९६,  
 ४७.

मला(ल-अ)वह- -हानि विघ ४१,  
 ४; -हेषु विघ ३३, ५.

१मलिन, ना- पाउवृ २, ४९<sup>०</sup>; पा  
 ५, २, ११४; -न: विघ ६९,  
 १२; -नाम् शंघ ३३४; विघ  
 ६९, ११.

मलिन-वसन<sup>०</sup>- > ण-  
 जीर्ण-रक्त-वासस<sup>०</sup>- -सा: अप  
 ६८, ४, १.

मलिन-वासस<sup>०</sup>- -ससा वाघ  
 १२, ५.

मलिना(न-अ)न्तर<sup>०</sup>- -रम् वैगृ  
 ६७: १२.

मलिनी > कृ > णी-करण->

णोय- -येषु विघ ४१, ५.

मलीमस- पा ५, २, ११४.

मलदा- -दा वैगृ ५, ४: ३५<sup>०</sup>.

मलय<sup>०</sup>- पाउ ४, ९९<sup>०</sup>; फि ५३;  
 -यम् शंघ ११६: ९.

मलय-क<sup>०</sup>- -के अप ५१, १, ४.

मला<sup>०</sup>- -लया अशां २१, ४<sup>०</sup>.

२मलिन- (> मालिन्य- पा.) पाग  
 ४, २, ८०.

१मलिम्बु<sup>०</sup>- -म्लव: आपश्रौ १६,  
 १०, ४; वौश्रौ १०, १४: ५;

वाश्रौ; -म्लव आपश्रौ १६, १०,  
 ३; वौश्रौ १०, १४: ४; माश्रौ;  
 वैश्रौ १८, ७: २०?।

मालिम्बव<sup>०</sup>- -वम् चाअ १६:  
 १३.

मलिम्बु-सेना- -ना तैप्रा ६, ७<sup>०</sup>.

मलिम्बुच्<sup>०</sup>- -न्बुचे आपश्रौ १४,  
 २५, ११<sup>०</sup>.

> मलिम्बुच्<sup>०</sup>, १मलिम्बुचामहे<sup>०</sup>  
 कागृ ४५, ७; मागृ २, १, १०.

१मलिम्बुच<sup>०</sup>- -च: शांश्रौ ६, १२,  
 १४; आपश्रौ ११, १५, १;  
 १६, १८, ८; वैश्रौ; अप ४८, ८३;

निघ ३, २४; -चाय<sup>०</sup> हिश्रौ  
 १५, ६, २९; -चे कागृउ  
 ४३: १०<sup>०</sup>; २१; ४५: ११<sup>०</sup>?

मलि<sup>०</sup>-हा<sup>०</sup>- -हा वाश्रौ ३, ४, ४४.

मलीमस- मल-द्र.

मलृक- पाउना ४, ४३.

म-लोप- म-द्र.

\*मलम(ल>)ला<sup>०</sup>-> णा > भू >

०ला-भवत्- -वन् अप ४८,  
 २०; निघ १, १७.

> मलन् पाघा. भ्वा. आत्म. धारणे.  
 मल्ल- (> माल्ल- पा.) पाग ४,  
 २, ७५.

मल्लक- पाउभो २, २, ७.

म(ल्लक>)ल्लिका- पाउवृ २, ३२.

मल्लूर- पाउवृ ४, ९०.

१मल्व<sup>०</sup>- -ल्व: अप ४८, ११६; -ल्वम्  
 अत्र १२, १<sup>०</sup>?

मल्हा<sup>०</sup>- -ल्हा काश्रौ १५, १०, ३;  
 माश्रौ ५, २, १०, १३; -<sup>०</sup>ल्हा:  
 आपश्रौ १९, १६, ६; हिश्रौ २२,  
 १, ६; -ल्हाम आपश्रौ १८, २१,  
 १३; वौश्रौ १२, १९: ६; २४,  
 ११: ५; ३८: ७; हिश्रौ १३,  
 ७, २२.

> मव<sup>०</sup> पाघा. भ्वा. पर. वन्धने.  
 मव<sup>०</sup>-

१मवतासाम् माश्रौ ६, २, २, १४.

१मवानारम्भभक्षणम् जैश्रौका १८६.

मवूल- पाउना ४, ९६.

> मव्य पाघा. भ्वा. पर. वन्धने.

> मश पाघा. भ्वा. पर. शब्दे, रोप-  
 कृते च.

मशक<sup>०</sup>- पाउभो २, २, ७; -क:  
 वौश्रौ १६, २७: २३; लाश्रौ  
 ७, ९, १४<sup>०</sup>; आपमं २, १६, १५-  
 १७<sup>०</sup>; हिगृ २, १६, ५<sup>०</sup>; शंघ  
 ३७७: १२; -<sup>०</sup>काम आपश्रौ:

a) तु. भाष्यम्; वैतु. Bōht [ZDMG ५२, ८६] Old. च षा: इति शोध: ?। b) विप. (त्तान-)।  
 उस.। c) पस.। d) < > मल्। e) वस.। f) = पर्वत-विशेष-। g) = देश-विशेष-। अदूरभवार्ये  
 क: प्र. उसं. (पा ४, २, ८०)। h) = श्रोपधि-विशेष-। i) वैप १ निर्दिष्टयो: समावेश: द्र.। j) म्लुच् इति  
 पाठ: ? यनि. शोध: (तु. आपश्रौ.)। k) विप. (सूक्त-)। l) = मलिम्बुच-। व्यु. वैप १, २४६६ n द्र.।  
 m) पाभे. वैप १, २४६७ b द्र.। n) धा. मलाधाने वृत्ति:। o) पाभे. वैप १, २४६६ g द्र.। p) नाप. (मल-  
 प्रद-असुर-)। शिष्टं वैप १ द्र.। q) = मल-मास-। r) षच: इति पाठ: ? यनि. शोध: (तु. पूर्व स्यलाम्)। s) वैप १ द्र.।  
 t) पाठ: ? शोधार्थं वैप १, २४६७ i द्र.। u) पा ६, ४, २० परामृष्ट: द्र.। v) पृ १९०१ a द्र.।

२१, १२, ३; हिश्रौ १६, ४, ३५;  
-कैः वीगृ ४, ९, ५; वाध ३,  
४६.  
मशक-मक्षिका-निलीन- नम् वैध  
३, ४, ८.  
मशका(क-अ)द(न>)नी<sup>h</sup>- न्याः  
कौगृ १, १५, १<sup>b</sup>.  
✓मप् पाधा. भ्वा. पर. हिंसायाम्.  
मष<sup>c</sup>- षम् शांठ १, २४, ७.  
मपी- षीम् कौगृ १, १६, १६.  
मष्मपा<sup>d</sup>- षा भाशि ११९; १२०.  
✓मस्<sup>e</sup> पाधा. दिवा. पर. परिणामे<sup>f</sup>.  
मसमसा (>स्वा✓कृ पा.) पाग  
१, ४, ६१.  
म-सवर्ण- म-द्र.  
?मसामित्वा वाधूश्रौ ३, २९ : ३.  
मसार- पाठभो २, ३, ४५.  
मसि- पाठ ४, ११८.  
मसिन- पाठवृ २, ४९.  
मसीय ✓मन् द्र.  
मसुर<sup>g</sup>- पाठ १, ४३; -राः अशां  
१२, ३.  
मसुर-कर्ण<sup>h</sup>- पा २, ४, ६९; पाग २,  
४, ६९<sup>i</sup>; ४, १, ११२<sup>j</sup>.  
मासुरकर्ण- पा ४, १, ११२.  
मसुराक्ष<sup>k</sup>- > मासुराक्ष- च्वाः  
वीश्रौप्र १२ : १.  
मस्सुर<sup>l</sup>- पाठ ५, ३; पाग ४, ३, १३६;  
-रान् अप ४६, १, ४.

मासुर- पा ४, ३, १३६.  
मसुर-कर्ण<sup>l</sup>- (>मासुरकर्ण- )  
मसूस्य<sup>m</sup>- स्यानि आपश्रौ २०, १०,  
५; हिश्रौ १४, ३, ३.  
मसूस्य-चर्मन्- र्माणि वीश्रौ १५,  
१६ : ५.  
मसृण- पाठभो २, २, १२३.  
✓मस्क् पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ.  
मस्कर<sup>n</sup>- ऋत ४, ७, ६; पा ६, १,  
१५४; पाग ६, १, १५३<sup>m</sup>.  
मस्करिन्<sup>n</sup>- पा ६, १, १५४; पाग  
६, १, १५३<sup>m</sup>.  
✓मस्ज्<sup>o</sup> पाधा. तुदा. पर. शुद्धौ.  
मस्तक<sup>p</sup>- पाठवृ ३, १४८; पाग २,  
४, ३१; -कात् आमिगृ २, ६,  
७ : १६; -के वैगृ २, ५ : ५;  
३, २३ : ७.  
?मस्तम् अप ३६, ७, २.  
मस्तिष्क<sup>q</sup>- ष्कः वाधूश्रौ ४, २० : २;  
-ष्कस्य आपश्रौ १७, २४, ३;  
वैश्रौ १९, ८ : ४; -ष्कात्  
आपमं १, १७, १<sup>r</sup>.  
मस्तु<sup>s</sup>- पाठ १, ६९; -स्तु काश्रौ  
७, ८, ८; -स्तुना कौसू ८७,  
१८.  
मस्मसा<sup>t</sup>- सा शुप्रा ५, ३७<sup>r</sup>;  
पाग १, ४, ६१.  
मस्मसा- कृ पा १, ४, ६१.  
✓मह्, मह-, ममह- ✓मंह द्र.

२मह- पाग ४, १, ४१; २, ८०<sup>q</sup>.  
ममही- पा ४, १, ४१.  
२महिन्- पा ४, २, ८०.  
महत- ✓मंह द्र.  
?महतम् मागृ १, २१, १०<sup>r</sup>.  
महन- प्रभृ. ✓मंह द्र.  
महय्यु<sup>h</sup>- > माहय्यव- -०व हिश्रौ  
२१, ३, १०<sup>s</sup>.  
महय्यु-चत् हिश्रौ २१, ३, १०<sup>t</sup>.  
महवन्<sup>d</sup>- ह्योनाम् गौपि २, ४, ७<sup>r</sup>।  
महस्- ✓मंह द्र.  
महस्- पाठ ३, ११७.  
महा ✓मंह द्र.  
?महा<sup>v</sup> माश्रौ २, ५, ४, १३<sup>w</sup>.  
महा<sup>d</sup>- (>३महिन्-)  
महाकर्णायन<sup>s</sup>- नाः वीश्रौप्र ४७ : ३.  
महाचक्रेय<sup>h</sup>- -याः वीश्रौप्र ४१ : ११.  
महाचित्त- (>माहाचित्ति- पा.)  
पाग ४, २, ८०.  
महाजपत्र<sup>h</sup>- त्रम् कौगृ २, ५, ३<sup>r</sup>.  
महादमत्र<sup>h</sup>- त्रम् शांठ ४, १०, ३<sup>r</sup>.  
महानग्न, ज्ञा<sup>d</sup>- षम् शांश्रौ १२,  
२४, २<sup>r</sup>; -ग्नाम् आपश्रौ १५,  
२०, ८; भाश्रौ ११, २१, ९;  
भागृ ३, ६ : १८.  
महानघ्नी- ण्नी शांश्रौ १२, २४,  
२<sup>r</sup>; वृदे १, ५५.  
महानघ्नी (>घ्नी<sup>d</sup>- न्याः<sup>h</sup> कौसू  
१३९, १५; अप ३२, १, १०.

a) विप. (वीरुध्-) । उस. । b) पाभे. पृ १९०० f द्र. । c) नाप. । d) वैप १ द्र. । e) ✓सम् इत्येके । f) परिमाणे इति दे. MW. । g) =मसूर- । h) व्यप. । i) तु. पागम. । मयूर<sup>o</sup> इत्यपरे, मसू<sup>o</sup> इति भाण्डा. प्रभृ. । j) षू<sup>o</sup> इति पाका. । k) =धान्य-विशेष- । l) =वेणु- । <मा + ✓कृ इति केचित् । m) तु. पागम. । n) =परिव्राजक- । <मा + ✓कृ इति पागम. । o) पा ७, १, ६० पावा १, १, ७; ४७; ७, २, ११४ परामृष्टः द्र. । p) =मस्तिष्क- । q) महा- इति पाका. । r) पाभे. वैप २, ३ खं. बहुधा तैत्रा २, ७, १७, ३ टि. द्र. । s) पाभे. पृ ३३६ ० द्र. । t) पाभे. पृ ३३६ q द्र. । u) पाभे. वैप १, २३८९ p द्र. । v) महा (महान्ता) कवी युवाना, सत्याद् वा धर्मणस् पती [सं२] । परि सत्यस्य धर्मणो वि सख्यानि सृजामहै इति शोधितः पाठः द्र. । w) पाभे. पृ ७३६ j द्र. । x) सपा. महाजपत्रम् <> महादमत्रम् इति पाभे. । y) पाभे. वैप १, २४६८ 8 द्र. ।

महापुत्र- (> महापुत्रि- पा.) पाग  
४, २, ८०.

महावाल्मीक- ल्याः वौश्रौप्र ७ : २.

महाम् ✓मंह् द्र.

महामनेन अत्र ६, १३३.

महामहयोः वाच १२, १६.

महावेल- लाः वौश्रौप्र १७ : १०.

महासीः निसू ९, ९ : ५३.

महि- ✓मंह् द्र

महित- (> माहित्य- [ > हित- ]  
पा.) पाग ४, १, १०५; २, १११.

महित्री, महिन्- ✓मंह् द्र.

महिन- मह- द्र.

महिन- महा- द्र.

महिन- ✓मंह् द्र.

महिम् हिथौ २१, १, १; २.

महिमन्- ✓मंह् द्र.

महिर- पाठना १, ५०.

महिल, ला- पाठ १, ५४; पाग ५, ४,  
१३८.

महिला-पाद- पा ५, ४, १३८.

महिष- पाठ १, ४५; पाग ६, ३,  
१०८; -फौष आपथौ १६, १२,  
११; माथौ २, ३, ७, ४फौ; हिथौ  
११, ५, ७; -फौषः आथौ ६, २,  
६××; शौथौ; या १४, १३; १; १७;  
-पाः आपमं २, ११, २३फौ;  
अप ७१, ३, ५; या ७, २६फौ.

महिषी- पाग ४, ४, ४८; -  
पी शौथौ १२, २१, २३फौ;

काथौ १६, ३, २०××; आपथौ;  
अप ७१, ७, ४६; शंघ ३०५६;  
विष ५, १४०६; -फौषः वौथौ  
४, २ : २२; माथौ ७, ३, ५;  
माथौ; -धीणाम् वौथौ १८,  
४५ : ४६; -धीम् आथौ १०,  
८, ९; शांथौ; अप ६८, २;  
३२६; -प्याः काथौ १५, ३, ६;  
वौथौ २६, १ : १२; वाथौ ३,  
३, १, ३५; वृदे ५, ६३; -प्याम्  
वौथौ १२, ११ : १०; -प्यै वौथौ  
१२, ५ : २०.

महाहिप- पा ४,  
४, ४८६; -षम् वौथौ २८, १३;  
४; वैथौ ११, ११ : १०; शंघ  
१५५; ४१८; -घाणि कौम्  
१७, २६.

महाहिष्य- -यः  
आपथौ ९, २०, ७.

महाहिष्य- -प्यम्  
शंघ ४१८.

महिपि-(क>)का-  
-काम् कागृ १९, ७.

महिष्य(पी-अ)पाडा-  
-ढयोः फि ६८.

महाहिप- -षम् शंघ २२२;  
-पेण आपथ २, १६, २७; विष  
८०, १०; हिघ २, ५, २६.

महिषक->क-वृषम- -भाः  
अप ५१, ४, ५.

महिष-वृष-वराहादि-द्विरद-  
जलगण- षैः अप ६५, २, २.

महिष-मत्- पावा ४, २, ८७.

महिष्मत्- > माहिष्मती- (>  
तैयक- पा.) पाग ४, २, ९५.

मही- मह- द्र.

मही- पाग ४, २, ९७; -फौहि आथौ  
२, १, २९; शांथौ; -फौहि आथौ

२, ९, १४××; शांथौ; आपथौ  
१६, ७, ३६; हिथौ ११, २, ५६;

कौथ १, १६, १८; ३, १५, ५६;  
शांथ ३, १३, ५५; माथ १, १४,

८५; अप ४८, ९२; १०२; १०२;  
निष १, ११; २, ११;

३, ३०; या ४, २१; ५,  
२२; -फौहिः आथौ २, १९,

२२; वौथौ १८, १६ : १४;  
आपमं; -फौहिनाम् काथौ २,

५, ९; ७, २, ३०; आपथौ;  
-फौहिम् आथौ २, १, २९;

१०, २१; ३, ८, १××; शांथौ;  
-फौह्या वौथौ २, १० : ३; १०,

३१ : ६××; आपमं; -फौह्याः  
आपमं १, ६, १३; २, १९, ४५;

आमिगृ ३, १, १ : १५; कागृ;  
वौथ २, ११, २६; भागृ २, ११ :

१४; हिगृ २, १०, ७; -फौह्यै  
आपमं १, ६, १४; ८, ९.

महाहिष्य(वप्रा.)- पा ४, २,  
९७; -यः वौथौ १७, १८ : ५;

- a) व्यप. । b) वैप १ द्र. । c) तु. पागम. । d) पाभे. वैप १, २४०० गृ द्र. । e) वैप १  
निर्दिष्टानां समावेशः द्र. । f) = राज-महिषी- । g) = सैरिमी- । h) वैप १, २४६९ l, m द्र. ।  
i) परस्परं पाभे. । j) विकारार्थे प्र. । k) = राजमहिषीप्राख्यभाग- । l) = राजमहिषी-गृह- ।  
m) अपत्यार्थे टक् > एयः प्र. उसं. (पा ४, १, १२३) । n) = क्षीर- । विकारे यच् प्र. उसं. (पावा ४, १, ८५) ।  
o) = देवता-विशेष- । स्वार्थे प्र. । p) विप. (मास- ) । अत्रयवार्थे प्र. । q) = देश-विशेष- ।  
r) = नगरी- । तेननिर्गृतायः प्र. । s) पाभे. वैप १, २३८९ i द्र. । t) महीम् इति पाठः ? यनि. शोधः  
(तु. शांथ.) । u) संप्र. मही < > मलाः इति पाभे. । v) पाभे. वैप १, २४७० गृ द्र. । w) = गो- ।  
x) = वान्- । y) = यावा-वृषिणी- । z) = नाग-विशेष- ।

वौद्य ३, १०, ६<sup>१०</sup>; -यम् वाघ १५, २०<sup>०</sup>.  
 मही-तल- लं अप १०, १, २१; ५७, २, ४.  
 मही-देवता-> ०<sup>१५</sup>- त्यम् अत्र २, ३१.  
 मही-भ्र<sup>०</sup>- पावाग ३, २, ५.  
 मही-निखन- नैन विध २३, ३.  
 मही-पति- -तये अप २०, ४, १; -तिः अप २, १, ३; ६××; -तिम् अप ५३, ३, ४; -तेः अप ६३, ४, ५.  
 मही-पाल- -ल विध ९८, १२; -लः अप २, २, ५.  
 मही-भस्म-प्रदिग्धा(ग्ध-अ) ङ-ङ्गः अप ६८, ५, १०.  
 मही-भाग- -गम् अप २, ३, १.  
 मही-म(य>)यी- -यी कप्र २, ५, १०  
 मही-रुह<sup>१</sup>- -हम् अप ३३, ९, ४.  
 ३मही-(>✓२महीय पा.) पाग ३, १, २७.  
 ✓१महीय ✓मंहू द्र.  
 महीयत्व L, ल<sup>१</sup>-(>माही<sup>०</sup> पा.) पाग ५, २, ६१.  
 महीयमान-, या- ✓मंहू द्र.  
 ?महीलुका<sup>१</sup>- -का अप्रा ३, ४, ११.  
 महीपाह<sup>१</sup>-, महेन्द्र- प्रम्. ✓मंहू द्र.  
 महेला- पाउमो २, ३, ११३.  
 महेश्वर- प्रम्. ✓मंहू द्र.  
 महोदकि- -कयः वौश्रौप्र ४३: २.  
 महोदय- प्रम्. ✓मंहू द्र.  
 मह्य- -हौ चात्र १५: ६.

मह्यम् अस्मद्- द्र.  
 शमा- अस्मद्- द्र.  
 मा<sup>१</sup> ङ्ङाश्रौ २, १९, ३६××; शांश्रौ; माश्रौ २, ३, ७, २<sup>३</sup>ङ्ङ; आपमं २, ३, २१<sup>१</sup>ङ्ङ; आग १, २०, ७<sup>१</sup>ङ्ङ; कौग २, ८, ९<sup>१</sup>ङ्ङ; शांग २, १८, ४<sup>१</sup>ङ्ङ; आग्निर २, ४, १: २०<sup>१</sup>ङ्ङ; काग ४१, १७<sup>१</sup>ङ्ङ; हिर १, २७, ८<sup>१</sup>ङ्ङ; या ६, २४<sup>१</sup>ङ्ङ; पाग १, १, ३७; ४, ५७<sup>३</sup>; पावा १, २, ९.  
 मो( मा-उ ) काश्रौ ५, ५, ११<sup>१</sup>ङ्ङ.  
 रमा(मा-आ)<sup>१</sup>- माभ्याम् ऋत ५, ६, ३.  
 माकिम् पाग १, ४, ५७.  
 माकिस्(:)<sup>१</sup> अत्र १९, ४७<sup>१</sup>ङ्ङ; निघ ३, १२<sup>१</sup>ङ्ङ; ङ्ङुप्रा ३, ७३; ५, ३७; तैप्रा ६, ५<sup>१</sup>ङ्ङ; पाग १, ४, ५७.  
 माकीम्<sup>१</sup> पाग १, ४, ५७.  
 मानस्तोके<sup>१</sup>- -केन अप ३८, २, ५.  
 मानस्तोकीय<sup>१</sup>- -यम् वौध ३, २, ६.  
 मा-शब्द- ( > ०<sup>१</sup>दिक- पावा. ) पावाग ४, ४, १.  
 ✓मा (L=✓मि] वधा.)<sup>१</sup> पाधा. अदा. पर., जुहु. दिवा. आत्म. माने, मिमीते शांश्रौ १७, १०, ७; ८; काश्रौ ४, ८, २; ५, ३, १९×× आपश्रौ; वौश्रौ २१, १२: १२<sup>१</sup>; मिमते आपश्रौ ५, २१, १०; ङ्ङिमिमीमहे कौस् ८५, ३; १२; ङ्ङिमिमीताम् आश्रौ ८, १, २३; ९, ५, ५; शांश्रौ; ङ्ङिमिमीहि<sup>१</sup> अप ४८, १२; निघ

३, १९; मिमीत नाशि २, ६, २; ङ्ङिमिमीत आश्रौ ४, ६, ३; शांश्रौ ५, ९, ७; वौश्रौ; या ९, १०<sup>१</sup>ङ्ङ. ङ्ङिमिरे कागृउ ४०: ७; वौद्य ३, ११, ४; मीयात् वौश्रौ २३, १९: ७; ङ्ङिमासि कौस् ८५, १७; अत्र १८, २.  
 मीयते वाधुश्रौ ४, ११३: ७; अप ६१, १, २१; वृदे ५, १५३.  
 मापयति वौश्रौ १८, २१: ४; मापयन्ति वौश्रौ १८, ४८: २४; ४९: ७; १५; ५०: ३; २५, ५: ६; मापयेत् वौश्रौ २५, ५: ७; ८; आग २, ७, १०; ८, ९; आपध २, २५, २; हिध २, ५, १८.  
 ङ्ङिमा<sup>१</sup>- मा काश्रौ १७, ९, ९; आपश्रौ १५, ८, २; १७, २, ४; भाश्रौ; ऋप्रा १७, १९.  
 रमा(मा-आ)दि- -दीनाम् ऋप्रा १७, २०.  
 मात्र<sup>१</sup>- पा ५, २, ३७; -त्रे शौच ४, २२.  
 मात्रा<sup>१</sup>( वप्रा. )- पाउ ४, १६८; -?त्रम्<sup>१</sup> माशि १३, ३<sup>१</sup>; -त्रया ङ्ङिआश्रौ ३, ८, १; ७, ९, ४; शांश्रौ; कौशि ६०<sup>१</sup>; -त्रयोः अप ४७, १, १८; -त्रा आश्रौ १०, ९, २<sup>३</sup>ङ्ङ; शांश्रौ; या ४, २५<sup>१</sup>ङ्ङ; ऋप्रा १, २७<sup>१</sup>; ३, २७; शुप्रा १, ५६<sup>१</sup>; ७३<sup>१</sup>; २, २८; ऋत २, ३, ८<sup>१</sup>; ४, १<sup>१</sup>; ६<sup>१</sup>; ५, २<sup>१</sup>; शौच १, ३८<sup>१</sup>; माशि<sup>१</sup> ४, १२; ९, ९; १३.

a) महयः इति पाठः ? यनि. शोघः ( तु. वौश्रौ. ) । b) विप. ( पात्र- ) । c) =पर्वत- । उप. < ✓ घ [धारणे] । d) =वृक्ष- । e) पाका. पाठः । f) वैप १ द्र. । g) पाभे. वैप १, १९९१ ङ द्र. । h) पाभे. पृ ४६८ g<sup>१</sup> द्र. । i) पाभे. वैप १, १८९४ g द्र. । j) वैप १, ६११ y द्र. । k) द्वस. । l) < मानस्तोके( ऋ १, ११४, ८ ) । m) पा ३, २, २; ६, ४, ६६; ७ ४, ४०; ५४; ७६ परामृष्टः द्र. । n) उत्तरेण संघिरापः । o) घा. याच्नायां वृत्तिः । p) = [प्रनाणार्थक-] प्रत्यय-विशेष- । q) पाठः ? चात्र इति शोघः ( तु. सप्र. ऋप्रा १३, ५० याशि १, १७ ) । r) = ह्रस्वकालपरिमाण- ।

२; याशि १,११<sup>३</sup>; १८<sup>३</sup>; २,२०<sup>३</sup>;  
 नाशि २, ३, ८<sup>३</sup>; -त्राः आपथ्रौ  
 २,२,८; वौश्रौ; वाध २०, ४५<sup>३</sup>;  
 या ११, १२; -त्राणाम् याशि  
 १,१८<sup>३</sup>; -त्राभिः वौश्रौ २६,  
 २४:३; अप ४७,२, ७; -त्राम्  
 वौश्रौ १६, २६:११; २०,  
 २४:२८; आपमं; विध ६५,  
 १४<sup>०</sup>; या १,८<sup>३</sup>; याशि १,१७<sup>३</sup>;  
 -त्रायाः कौशि ६५; -त्रायाम्  
 हिश्रौ १,८, १६<sup>३</sup>; निसू ९, २:  
 १२; शैशि १८९; याशि २,  
 २३<sup>३</sup>; -त्रे याशि १, १४<sup>३</sup>;  
 -त्रेभ्यः या १३, ११.  
 ०मात्र- -त्रस्य पावा १, १, ३;  
 -त्रे पावा ५, २, १४.  
 मात्रा-काल<sup>०</sup>- -लः याशि १,  
 १०; -लम् कौशि ६९.  
 ?मात्राणुमात्रा<sup>१</sup>- -त्राः शुप्रा ४,  
 १४९.  
 मात्रा(त्रा-अ)णू-भाव- -चात्  
 या ६, ३०.  
 मात्रा-द्विमात्रा-वृद्ध<sup>६</sup>- -द्वानाम्  
 नाशि १, ६, ७.  
 मात्रा(त्रा-आ)धिक्य- -न्यम्  
 शैशि १२५.  
 मात्रा(त्रा-अ)पचार- -त्रे आपथ्रौ  
 २४, ३, ५४; हिश्रौ ३, १, २६.  
 मात्रा(त्रा-अ)पपाठ- -ठात् याशि  
 १, ४२.  
 मात्रा-परिग्रह- -हः ऋप्रा १३,  
 ५०; माशि १३, ३.  
 मात्रा(त्रा-अ)र्थ- -र्थम् पावा १,

२, ५०<sup>३</sup>; -र्थे पा २, १, ९.  
 मात्रा(त्रा-अ)र्ध- -र्धम् शौच १,  
 ५०; १०७.  
 मात्रा-लक्षण- -णम् कौशि ६८;  
 ७०.  
 मात्रा-चत् काश्रौ १, ९, ७; ८,  
 २, २३.  
 मात्रा-वर्णा(रुं-अ) विभक्तत्व-  
 -त्वात् मीसू ७, २, ९.  
 मात्रा-विशेष- -पः ऋप्रा १३,  
 ४८.  
 मात्रा(त्रा-अ)वेदन<sup>१</sup>- -ने वैश्रौ  
 २०, १:४.  
 मात्रा-संसर्ग- -र्गात् ऋप्रा १३,  
 ४०.  
 मात्रा-सङ्ग<sup>१</sup>- -ङ्गात् वाध १०,  
 २२.  
 मात्रा-संपूरण- -णाय निसू ९,  
 १२:२७.  
 मात्रिक, का<sup>६</sup>- -कः शैशि ३२;  
 याशि २, ४२; ७१; नाशि १, ८,  
 ३; -कम् शैशि १२४; २२७;  
 याशि १, १२; ९१; नाशि २,  
 ३, ६; ४, ३; ६, १०; -काः याशि  
 १, १७; -के याशि १, ६७; २,  
 ४२.  
 ?मात्रैकम्<sup>१</sup> माशि ११, १.  
 मात्रो(त्रा-उ)पज्ञो(ज्ञा-उ)पक्रम-  
 च्छा(या>)य- -ये पा ६, २,  
 १४.  
 मापयित्वा शांश्रु १, ८, १४<sup>३</sup>; माश्रु  
 २, ११, १६.  
 १मित्वा काश्रौ १६, ८, १; वौश्रौ

२५, १०:२; वाश्रौ.  
 मिमान- -नः वौश्रौ ६, १४:१७;  
 ७, ५:१२; ८, १:८; वैश्रौ;  
 -नम् वैताश्रौ १५, ७; कौसू  
 १३७, १०; -ना या ८, १२<sup>३</sup>कृ;  
 -नाः या ६, ६<sup>३</sup>.  
 मीयमान- -नः अप्राय ३, १<sup>३</sup>;  
 -ने आपथ्रौ १४, ८, ५<sup>३</sup>; ९, ४;  
 हिश्रौ १०, ८, १०; १३; -नेषु  
 हिश्रौ १६, २, ३.  
 मे(य>)या- -या वौश्रौ १२, १:  
 ८; -यायाः निसू ७, २:  
 १३.  
 ✓मा पाधा. जु. आत्म. शब्दे, ऋमिमाति  
 आश्रौ २, १३, ७; या २, ९<sup>३</sup>;  
 ११, ४२.  
 माश्रु<sup>३</sup>- पाठ १, १<sup>०</sup>; -युः शाश्रौ  
 १६, ३, १४<sup>३</sup>; १२, १३<sup>३</sup>; अप ४८,  
 १०२<sup>३</sup>कृ; निच १, ११<sup>३</sup>; -न्युम्  
 शाश्रौ ४, १७, १२; काश्रौ; या  
 २, ९<sup>३</sup>; ११, ४२<sup>३</sup>; -न्युम्  
 वौश्रौ ११, ४:१७; २१; १५,  
 २८:२८; २९:१३.  
 रमा<sup>१</sup>- अस्मद्- द्र.  
 रमा- मा द्र.  
 रमा- ✓मा (वधा.) द्र.  
 ऋमांश्चत्त्व<sup>६</sup>- -त्त्वः अप ४८, ९३;  
 निच १, १४; -त्वे ऋप्रा ४, ८२;  
 १३, २७.  
 मांस<sup>१</sup>- पावा ६, १, ६२.  
 ऋमांस-पच(न>)नी<sup>१</sup>- पावा ६,  
 १, १४०; -न्याः ऋप्रा ४, ८२;  
 शुप्रा ४, ४२; ५, ४३.

a) = हस्तकालपरिमाण- । b) = संपत्ति- । c) = दर्पण- । d) = स्वर-भक्ति- । e) वस- । f) पाठः ?  
 मात्रासर्धमात्राऽणुमात्राः इति शोधः (तु. भाष्यम् [१, ६०]) । g) मात्र-द्विमात्र<sup>०</sup> इति लासं. । h) चस. (तु. भाष्यम्) ।  
 i) उप. = अलाम- । j) पूष. = इन्द्रिय- । k) विप., नाप. (एकमात्रात्मकत्वर-). भवार्थे इदमर्थे च प्र. । l) मात्रिक-  
 > -कम् इति शोधः (तु. मूको.) । m) पाभे. पृ १७१८ III द्र. । n) वैप १, २४७४ I द्र. । o) < ✓मि ।  
 p) = शुगल- । q) = वान्- । r) पृ ४६८ यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । s) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र. । t) वैप १ द्र. ।



मांस-पाक- पात्रा ६, १, १४०.  
 मांस<sup>a</sup>- पाट ३, ६४; पाग ४, १, ४१<sup>b</sup>;  
 ४, १०२<sup>b</sup>; ५, २, ९७; पागवा  
 ५, १, १०१; -सम् शाश्रौ २,  
 ३, २६; ४, १८, १०; आपश्रौ  
 ५, ७, ६; १६; २५, १९; ६, १५, ४;  
 ८, ४, ५; ९, ४, १५; १५, २१,  
 ७; १६, ८, ९; १०; २२, ३, १६;  
 कांठश्रौ; आश्र १, २३, २३;  
 आमिश्र २, ४, ४: ६; ५, ८: १६;  
 ३, १, ३: ३७; आपश्र २२, ११;  
 वीश्र २, ७, १८; ११, १५; ३४;  
 ६५; ३, ४, ३४; माश्र २, १४,  
 २८<sup>c</sup>; वाश्र ३, ७; वैश्र ५, १२:  
 ६; ११; हिश्र २, १३, ४; गोश्र ४,  
 ७, २९; जैश्र १, १४: १४; द्राश्र  
 ३, ५, ४; कप्र ३, ८, ६; अप १,  
 ३३, २; २७, १, ३; ६७, ४,  
 १; ७०<sup>d</sup>, १९, ७; ७१, १४, १;  
 वाघ २, २६; ४-५, ७; ११, ३४;  
 ३७; १२, २३; २०, २६; २३,  
 ११; शंघ ३९०; ४१८; ४४८;  
 आपघ १, १६, १६; १८, १; २५,  
 १३; २, ५, १६; १६, २८; १८,  
 १; १९, १४; वीघ १, ११, ३६;  
 ३, ३, ६; ४, २; ७, ८; विघ २३,  
 ५०; ४३, ३९; ४४, २१; ५१,  
 ७१<sup>e</sup>; ७३; ७८; ८०, १४;  
 वैघ २, १५, ५; ६; ३, ५,  
 ९; हिघ १, ५, १५; ७१; ७,  
 १०; २, १, ९८; ५, २७; ३१;  
 ५३; ८५; गौघ १४, ३७; १६,  
 ३; २४, ८; वृदे ७, ७८; या ४,  
 ३६; १४, ६; माशि ४, १४; ९,

११; मीस् ३, ८, ४२; -सस्व  
 आपश्रौ १५, १५, १; भाश्रौ ११,  
 १५, २५; हिश्रौ २४, ६, १२;  
 आश्र; -सात् आपश्रौ १५, १७,  
 ८; भाश्रौ ४, ३, ३; ११, १७, १०;  
 माश्रौ; -सानाम् भाश्र २, १७:  
 १; हिश्र २, १५, ९; १०;  
 -सानि पाश्र १, ११, ५; अप्राय  
 ३, १०; विघ ५१, ७६; -से  
 अश्र १, ११<sup>f</sup>; माशि ४, १४;  
 -सेन आपश्रौ ६, १५, १; १६, १९,  
 १; भाश्रौ ६, १४, १४; वाधूश्रौ;  
 पाश्र १, १६, २<sup>g</sup>; -सेषु आपमं  
 २, ११, १९<sup>h</sup>; -सै: पाश्र १,  
 ११, ५; अप १, २७-२८, २;  
 ३०, २; ४४, ३, १०.  
 मांसी<sup>i</sup>- पा ४, १, ४१; -सी  
 अप ३५, २, ४.  
 †मांस-काम- -म: गौपि १, १, २७;  
 -मा: हिपि २१: १६; आमिश्र  
 ३, ९, १: ४; वौपि २, ५, १.  
 मांस-क्षीरौ(र-ओ)दन-मधु-कु  
 (ल्य>)ल्या-ल्याभि: कप्र २,  
 ४, १५.  
 मांस-चरु- -रुम् गोश्र ४, १, ६; २,  
 १४.  
 मांस-त्वस्(ः) माश्रौ १, ५, १, १७;  
 २, १, २, २; ३.  
 मांस-वैल-विपाक- -का: अप ६४,  
 ६, ८.  
 मांस-त्व- -त्वम् विघ ५१, ७८.  
 मांस-त्वग्-अस्थि- -स्थि अप्राय ३,  
 ८.  
 मांस-धौत<sup>j</sup>- -त्वस्य आपश्रौ ६, १२,

३<sup>k</sup>.  
 मांस-परिवर्जन- -नात् विघ ५१,  
 ७७.  
 मां, मां<sup>l</sup>स-पाक<sup>m</sup>- पाग ७, ३, ५३;  
 -क: मीस् १२, २, ६.  
 मांसपाक-प्रतिषेध- -घ: मीस्  
 १२, २, २.  
 †मांस-पिप्पलि<sup>n</sup>- -०ले<sup>o</sup> आपमं २,  
 २१, १<sup>प</sup>.  
 मांस-पेश<sup>q</sup>- -शम् अप ६७, ७, २.  
 मांस-पेशी<sup>r</sup>- -शी अप १, ३५, १;  
 -शीम् गोश्र ४, २, १२.  
 मांस-प्रतिषेध- -घ: काश्रौ १, १,  
 २१.  
 मांस-भक्षण- -णम् आपघ १, २१,  
 १४; हिघ १, ६, ४४.  
 †मांसभैक्षार्हा<sup>s</sup>- -र: सुघ ४७.  
 मांस-मत्स्य-विल-संसृष्ट-प्राशन-  
 -ने वौघ २, ३, २३.  
 मांस-मधु-शुवौ(त-श्रौ)पधि-गन्ध-  
 पुष्प-मूल-फल-रस-दारु-पत्रा(त्र-  
 श्र)जिन-सृङ्गाण्डा(ण्ड-श्र)  
 श्मभाण्ड-वैदल- -लेभ्य: विघ  
 ३, २५.  
 मांस-मय- -या: निसू १०, ९:  
 २०.  
 मांस-माप-लवण-वर्जम् वाश्रौ १,  
 १, २, २.  
 मांस-मुख<sup>t</sup>- -ख: कौस् १२९, १;  
 -खे कौस् ९३, ३६.  
 मांस-मैथुन- -ने काश्रौ २, १, ८.  
 मांस-ल, ला- पा ५, २, ९७; -लाम्  
 वौश्रौ २, ८: १; -ले अप ६३,  
 १, ८.

a) वैप २ द्र. । b) तु. पागम. । c) पामे. वैप १, २४७५ i द्र. । d) = भोपधि-विशेष- [जटा-  
 मांसी-, सुरामांसी-] । e) तुस. पूष. = [उपचारात्] दस्त- । f) भाण्डा. [पक्षे], पाति. पाठः । g) नाप. ।  
 चस. उप. कर्त्तरि लण् प्र. । h) नाप. । अर्थः? । i) सपा. शांश्र ३, १२, ५, १४, २ सुमनामुषि इति पामे. ।  
 j) = मांस-खण्ड- । k) पाठः? मांसं भैक्षार्हा इति द्विपदः शोधः (तु. सप्र. सुघप [८६:११]) । l) वस. ।

मांस-लक्षण-मिथुन-साप<sup>१</sup>- चैभ्यः  
 शांश्रौ ४, १, ३.  
 मांस-लक्षण-लाक्षा-क्षीर-विक्रयित्-  
 -त्री विघ ५४, २१.  
 मांस-वत्- -वत् आपसं २, २०,  
 ३३; पाठ ३, १०, ४८; आमिष्ट  
 ३, २, ६; १; भाग २, १७: २;  
 हिष्ट २, १५, ९.  
 मांस-वर्जन- -नम् वाश्रौ ३, १४,  
 १९.  
 मांस-वर्जम् आपश्रौ १०, १६, १४;  
 श्राष्ट १, ९, ५.  
 मांस-वर्ष<sup>२</sup>- -षेण अष ७१, ८, ३.  
 मांस-शेष- -षेण वौष्ट २, ११, ५०,  
 भाग २, १७: १५; हिष्ट २, १५,  
 १३.  
 मांस-शोणित- पाग २, ४, ११.  
 मांसशोणित-कर्म<sup>३</sup>- -न्नाः  
 अष ६२, १, ८; २, ४.  
 मांसशोणित-नान्ध- -न्धानि अष  
 ७१, १२, २.  
 मांसशोणित-वर्षण- -णे अष  
 ७१, १, ३.  
 मांस-संहित, ता- -त्तान्याम् काश्रौ  
 २, ६, ३३; आपश्रौ २, १८,  
 १०; भाश्रौ २, १७, ९; वाश्रौ  
 १, १, १, ३१; वैश्रौ ६, ८:  
 ३; हिश्रौ २, २, १४; जैष्ट १, ३:  
 २२; -ते काश्रौ ७, ३, १७; भाश्रौ  
 १०, ५, १४; हिश्रौ ७, १, ४५.  
 मांस-सस्या (त्य-ञ) स-विद्वेष-  
 -षः अष ६४, ५, ५.  
 मांस-सुम्<sup>४</sup>- -न्ताः आमिष्ट ३, ४,  
 २: १७; वौषि ३, २, ३; गौषि १,

२, ४१.  
 मांस-स्त्र्य (स्त्री-ञ) वृत्- -त्तानि  
 काश्रौ ५, २, २२.  
 मांस-स्त्र्य (स्त्री-ञ) वृत्-मूत्रकृतवा-  
 सस्<sup>५</sup>- -सांसि काश्रौ ४, ४, २७.  
 मांसा (स-आ) दि- -दीनान् लुष  
 ८७: १६.  
 मांसा (स-ञ) नशन- -नम् शांश्रौ ३,  
 १३, ३०.  
 मांसानशाना (न-आ) दि-वत-  
 -त्तानि वैश्रौ ८, ८: ६.  
 मांसा (स-ञ) भाव- -वे : आमिष्ट  
 ३, १, ३: ३७; हिष्ट २, १३, ५.  
 मांसा (स-ञ) भिवार<sup>६</sup>- -राः गोष्ट ४,  
 २, १३.  
 मांसा (स-ञ) वदाना (न-ञ) र्थ-  
 -थैः क्रम ३, १०, ३.  
 मांसा (स-ञ) शन- > -न-श्राद्धसूक्त  
 भोजन- -नेषु शांष्ट ६, १, ७.  
 मांसा (स-आ) शा- -शा आपश्रौ ७,  
 २८, ८१.  
 मांसा (स-ञ) षका<sup>७</sup>- -का जैष्ट २, ३:  
 २.  
 मांसिक- पा ४, ४, ६७; १०२; ५,  
 १, १०१.  
 ✓मांसीय, मांसीयन्ति आपश्रौ ७,  
 २८, ८१; वाधूश्रौ ४, १०: २.  
 मांसो (स-ञ) क- -क्त वैष ३, ५, ६.  
 मांसो (स-ञ) दन- -नम् अष १, ३, ६,  
 ५; वौष्ट २, ११, ३६; जैष्ट २,  
 ९: २७.  
 मांसो (स-ञ) र्यासन- -ने काश्रौ  
 १६, १, २९.  
 मांसो (स-ञ) प्गवा- -त्ता अष ६८,

१, २५.  
 मांसो (स-ञ) दन- पाग ४, १०२;  
 १०३; पागवा ५, १, १०१;  
 -नम् आमिष्ट २, ५, १: ३६;  
 आपष्ट २२, ५.  
 मांसो दन-पिण्ड- -पण्डान् भाग  
 २, ९, ८.  
 मांसो दनिक- पा ४, ४, ६७;  
 १०२; १०३; ५, १, १०१.  
 मांसो दनिका (क-आ) दि-  
 -दिष्टु पावा ५, १, १९.  
 मांस-काम- प्रवृ. मांस- द.  
 मांस्ता ✓नम् (परि.) द.  
 मांस-पच-, प्वाक- मांस- द.  
 माकथेय- नकथु- द.  
 माकरायण- -नकर- द.  
 माकष्टेय- नकष्टु- द.  
 माकिम्, माकिन्, माकीन् मा द.  
 माक्षन्व्य-, प्यायनी- -नलु- द.  
 माक्षिक- मक्षिक- द.  
 मागद्य- मगदिन्- द.  
 रमागद्य- मगद्य- द.  
 रमागद्य<sup>८</sup>- -षः आपश्रौ २१, १९, ६;  
 हिश्रौ १६, ६, २४; वाष्ट १०, १८;  
 वौष १, ९, ६; वैष ३, १३, ११;  
 अषा ३, ४, १; -घम् भाशि  
 ४८: -धानाम् विघ १६, १०;  
 -धाय आपश्रौ २१, १७, १९.  
 मागद्य-वाक्य<sup>९</sup>- -क्यः वौश्रौ १८,  
 २५: ६; ८.  
 मागद्यदेश- प्रवृ. मगद्य- द.  
 मागीर<sup>१०</sup>- -रस्य वाश्रौ ३, २, ५, ४३;  
 माघ- प्रवृ. मघा- द.  
 माघष्टेय- मघष्टु- द.

a) अग्रहृतत्वाद् मिथुन-शब्दो मध्ये प्रक्षित इवेति C. । b) उप. = वर्षा- । c) वस. । d) सूत्रकृत° इति चौंस. । मूत्रकृत° = मूत्रभिल्लन° इति P.W. प्रवृ., रजकरीत° इति विद्याधरः । e) = माघनासकृत्यापवाहनी-र्यम्- । मलौ. कस. । f) रुपा. मांसो <> मांसौ इति पाप्मे. । g) वृ. पागन. । h) वैष १ द. । i) = मदीर- । j) पाप्मे. पृ १८९९ गृ द. ।

माघी- मघा- द्र.  
 माङ्- माङ् पा ३, ३, १७५.  
 माङ्- पा ६, १, ७४.  
 माङ्-योग- गो अत्रा २, ३, ७; पा ६, ४, ७४.  
 माङ्गल- मङ्गल- द्र.  
 माङ्गल- मङ्गल- द्र.  
 √माङ्क्ष पाधा. भ्वा. पर. काङ्क्षायाम्.  
 माङ्क्ष- व्यायनी- २मङ्क्षु- द्र.  
 माङ्क्ष- -दः या ६, ३२६.  
 माङ्गल- मङ्गल- द्र.  
 माङ्गलि- -लयः वौश्रौप्र २७ : २.  
 माङ्गल्य- मङ्गल- द्र.  
 माङ्गुप्य- मङ्गुष- द्र.  
 माच- (>ची- पा.) पाग ४, १, ४१  
 माचाकीय- -यस्य तैप्रा १०, १२.  
 माजिरक- मजिरक- द्र.  
 माजिष्ठ- प्रमृ. मजिष्ठा- द्र.  
 माजीरक- मजीरक- द्र.  
 माटव- चम् निसू ७, ११ : १७०.  
 माठर- मठर- द्र.  
 माठर- (>रक- पा.) पाग ४, २, १२७.  
 माठरायण- मठर- द्र.  
 √माड पाधा. भ्वा. उभ. माने.  
 माडार्य- मडार- द्र.  
 माड्डुक- किक- मड्डुक- द्र.  
 माणभिन्द्व्य- न्याः वौश्रौप्र १७ : ५.  
 माणव- >माणव-क- -कः गोग २,

१०, ६; १६; ३२; -कस्य चाध  
 १६ : १९; -काय कागृ २८, ५.  
 माणवीन- पा ५, १, ११.  
 माणव्य- पा ४, २, ४२; ५, १, १२४.  
 माणि- -णिः वौश्रौप्र ३१ : २.  
 माणिक्य- मणि- द्र.  
 माणिचर- -राय पागृ ३, १४, ७.  
 माणिपाल- , लिक- मणि- द्र.  
 माण्डरिक- मण्डर- द्र.  
 माण्डलिक- २मण्डल- द्र.  
 माण्डलेखि- -खयः वौश्रौप्र ४७ : १.  
 माण्डव- प्रमृ. मण्डु- द्र.  
 माण्डक- १मण्डक- द्र.  
 रमाण्डक- , कायन- प्रमृ.  
 २मण्डक- द्र.  
 मात- पावा १, १, १४.  
 मातर-पितृ- , मातरि-पुरुष- मातृ- द्र.  
 मातरिभ्रव- (>र>)री- -री- अत्रा ३, २, ३२; ४, १.  
 मातरिश्चन्- पाठ १, १५९; पाग ५, २, ६२; -ंश्चः, -श्चन् या ७, ३१; -ंश्चनः काश्रौ ४, २, २०; आपश्रौ; -श्चना वौश्रौ ३, २८ : १९१; -श्चनि शाश्रौ १६, ११, २६; -श्चने सु ६, ५; -श्वा ऋश्रौ १, ६, १; ४, १२, २; ५, ९, १; शाश्रौ; ऋश्र २, ८, ५४; या ७, २६१; -श्चानम्

या ७, १८१; २६; -श्वाना  
 आपश्रौ ६, २१, ११; -श्चानौ  
 वाधुश्रौ ३, ५४ : ११.  
 मातरिश्चक- पा ५, २, ६२.  
 मातलि- -लिम् शंघ ११६ : १५.  
 मातली- -ली आश्रौ ५, २०, ६; शाश्रौ ८, ६, १३; वैश्रौ ९, ९ : १; कौसू ५८, २५; अप ३२, १, ३१; ४६, ६, ४; अश्र ११, ६.  
 मातवचस- √मन् > मत्वचस- द्र.  
 मातवै या ११, ४२.  
 माता-पितृ- मातुल- प्रमृ. मातृ- द्र.  
 मातुलुङ्ग- पाठभो २, २, ६५.  
 मातृ- पाठ २, ९५; पाग ४, १, १०; पावा ६, १, १४; -तः शाश्रौ १, ५, ९१; काश्रौ १५, ६, २५; वैताश्रौ; सु ६, ३; ७, ४; ९, ५; ११, ३; २१, ४; मागृ १, २, २६; -तः आश्रौ ६, १३, ११; ८, १२, ६; काश्रौ; आपमं १, ११, ४; कागृ ३०, ३; वौगृ १, ९, ३; या ३, ६; १२, ७; १४, ६; -तः आश्रौ २, १, २९; ७, ११; १०, २१; ३, ८, १४; ८, १३, २; शाश्रौ; माश्रौ २, ५, ४, २१; लाश्रौ ३; ७, ८; कौगृ ३, ६, १; शागृ ३, ११, ४; या २, ४; १०, ४६; -तः आपश्रौ १३, १९, ५;

- a) =मा । b) =मगन्द-। व्यु. ? । c) = ऋषि-विशेष-। d) तु. पागम. ।  
 e) पाठः? माटचम् (<मटची-) इति शोधः संभाव्यते ( तु. [अंशतः] मूको. ) । f) पृ १९०१ गति. यनि.  
 संख्यासंकेतः द्र. । g) =देश-भेद-। ग्राम- इति पागमं. । h) तु. BFG. । i) =वालक-। व्यु. ? । पाम ४, १, १६१ <मनु[गु]- इति । j) अनुकम्पायां कन् प्र. । k) अर्थः व्यु. च ? । = [रथाधिष्ठात्री-] देवता- इति जयरामः  
 असुरविशेष- इति Old. , पूष. < मणि- इति MW. । l) =मातृ-। m) वैप १ द्र. । n) वैप १, २४७६ f द्र. ।  
 o) शोधः वैप १, २२८७ d द्र. । p) परस्परं पामे. । q) = इन्द्र-आरथि-। व्यु. ? < मत्तल- इति अभा. शक. ।  
 r) वैप-१; २४७७ e द्र. । s) पामे. वैप २, ३६. माता तैप्रा १०, २६, १ टि. द्र. । t) वा विसर्गलोपः उच्च.  
 (पावा ८, ३, ३६) । सपा. त्तरः <> त्तरी इति पामे. । u) पामे. वैप १, २४७७ d द्र. ।

वौष्ट ३, ११, ३; या ९, ३९;  
 -त्तरि आपश्रौ १६, २६, १२०;  
 वैश्रौ; शंघ २७०; ३४८; आपघ  
 १, १०, ४; १४, ६; या ३,  
 ४; ७, २६<sup>३</sup>; पावा ४, २, ३६;  
 -त्तरौ माष्ट १, १४, ०६०<sup>३</sup>; या ९,  
 ३९; -त्ता आश्रौ १, ३, २२;  
 शांश्रौ; आपश्रौ १६, २६, १२<sup>२०</sup>;  
 वैश्रौ १८, १८: १६०; हिश्रौ  
 ११, ७, ५१<sup>२०</sup>; आमिष्ट २,  
 ६, ८: २२<sup>१</sup>; ३, ८, ३: ११<sup>१</sup>;  
 या २, ८<sup>१</sup>; -त्तु: शांश्रौ १२,  
 २२, १; आपश्रौ; शांष्ट ३, १३,  
 ५<sup>१</sup>; पाष्ट ३, ७, २<sup>६</sup>; या २,  
 ८<sup>१</sup>; ८, १८; पा ४, १, ११५<sup>१</sup>;  
 -तृभि: आश्रौ ४, ७, ४<sup>२</sup>०<sup>१</sup>;  
 काश्रौ; -तृभ्य: वौश्रौ १०, ४:  
 ११<sup>१</sup>; वौश्रौ २, १, १९; ११,  
 ३४; आमिष्ट; -तृ: आपश्रौ २१,  
 ८, ३; वौश्रौ; -तृणाम् काश्रौ ४,  
 २, ९; -त्रा शांश्रौ १५, १७, १<sup>१</sup>;  
 काश्रौ २०, २, १<sup>१</sup>; आपश्रौ;  
 सु १५, ३; १८-१९, १; आमिष्ट  
 २, २, ३: ३; विघ १५, २५;  
 पा १, २, ७०; -त्रे काश्रौ १४,  
 ५, १४<sup>१</sup>; आपश्रौ; आष्ट १, १७,  
 ११; माष्ट १, ११, ३;  
 अप ३२, १, १९; शंघ ११६:  
 ७३; आपघ १, ७, १५; विघ  
 ७४, १; हिघ १, २, ७२.  
 मातर-पितृ- पा ६, ३, ३२.  
 मातरि-पुरुष- पाग २, १, ४८; ६,  
 २, ८१.  
 माता-पितृ<sup>१</sup>- -त्तरि हिघ २, ३, ४४;

-त्तरौ आष्ट १, १५, ८; कौष्ट;  
 -तृभ्याम् वाघ १७, ३७; ७१; वौघ  
 २, २, २०; २३; विघ १५, १९;  
 वैघ ३, ३, ८; गौघ १४, ४१; -त्रो:  
 काश्रौ १५, ४, १६; पाष्ट.  
 मातापितृ-कृत- -तम् अप ३८,  
 ३, ५.  
 मातापितृ-निमित्तक<sup>१</sup>-  
 -क: वाघ १५, १.  
 मातापितृ-रहित- -त: विघ २४,  
 २३.  
 मातापितृ-विहीन- -न: वौघ २,  
 २, २८.  
 माता-पुत्र<sup>१</sup>- -त्रयो: आमिष्ट २, १,  
 ५: १; -त्रौ भाष्ट १; २६: ३;  
 हिष्ट २, ४, ६; वृदे ४, ३९.  
 माता-मह- पा, पावा ४, २, ३६; पाग  
 ४, १, ४१; -ह: वाघ १७, २३;  
 विघ २४, ३८; -हयो: पाष्ट ३,  
 १०, ४०; -हस्य वाघ १७, २२;  
 -हान् आमिष्ट २, ६, ३: ४८;  
 कप्र २, २, ३-८; वौघ २, ५,  
 २८; -हानाम् विघ ७५, ७;  
 -हाय शंघ ११६: ७३; -हे  
 विघ २२, ४२; -हेभ्य: आमिष्ट  
 १, २, २: ३२x४; वौष्ट ३, ९, ७;  
 भाष्ट ३, ११: ६; हिष्ट २, २०,  
 २; अप ४३, ६, ३.  
 मातामही- पा ४, १, ४१;  
 पावा ४, २, ३६; -ही वौश्रौ १२,  
 १८: ७; -ही: आमिष्ट २, ६, ३:  
 ४९; वौघ २, ५, २८; -हीभ्य:  
 आमिष्ट १, २, २: ३३; ३, ११,  
 ४: २५<sup>१</sup>; वौष्ट २, ११, ३४<sup>१</sup>;

-ह्यै शंघ ११६: ७४.  
 मातामह-पितामह- -हाम्याम्  
 शंघ २९०.  
 मातामह-प्रभृति- -तीन् कप्र  
 १, ३, १२.  
 मातुल<sup>१</sup>- पा, पावा ४, २, ३६; -ल:  
 आमिष्ट २, ३, ५: १४; वौष्ट १,  
 २, ६५; वैघ २, ११, २; -लम्  
 वौषि ३, १, ५; आज्यो १२, ६;  
 -लस्य या १४, ३०<sup>१</sup>; -ला:  
 सुघष ८५: २.  
 मातुलानी- पा, पावा ४, १,  
 ४९; -नी वौघ २, २, ६४.  
 मातुलानी-पितृष्वस्-  
 स्तुषा-भगिनी-दुहितृ-गमन-  
 -नेषु शंघ ३८६.  
 मातुली- पावा ४, १, ४९.  
 मातुल-पितृ-ष्वस्- -सा वौघ  
 २, २, ६४.  
 मातुल-पितृष्वस्-दुहितृ-  
 गमन- -नम् वौघ १, १, १९.  
 मातुल-मातामह- -हेभ्य: अप  
 ४४, ४, ९.  
 ?मातुलयोगकन्याभागम् या  
 १४, ३०.  
 मातुल-श्वशुर- -रौ वौघ २, ३,  
 ५७.  
 ?मातुलसुतामातृष्वस्गोत्रापौ<sup>१</sup>  
 सुघ ४९.  
 मातु:-ष्वस्-मातु:-स्वस्- पा ८,  
 ३, ८५.  
 मातृ-क- पावा ६, १, १४; पाग ४,  
 २, १३८<sup>१</sup>.  
 मातृ-गण- -ण: अप ३२, १, ४; -णै:

a) = (वायु-मातृस्थानीय-) अन्तरिक्ष- । b) पामे. पृ १९४५ t द्र. । c) पामे. वैप १, २४७८ f  
 द्र. । d) पामे. वैप २, ३६. माता तैश्चा १०, २६, १ टि. द्र. । e) पामे. वैप १, १६१२ a द्र. । f) पामे.  
 पृ ५३३ d द्र. । g) पामे. पृ १८८३ p द्र. । h) वैप १ द्र. । i) वस. । j) दल. पृ. मातृ-गण-  
 (पावा ६, ३, २४) । k) पाठ: ? प्रतिपत्त्यर्थं संस्कृतु: टि. द्र. । l) तु. पागम. ।

अप २०, २, ६.  
 मातृ-गमन- -नम् विध ३४, १.  
 मातृ-गामिन्- -मि विध १७, ७.  
 मातृ-गोत्र-नामा( म—अ)न्त-  
 -न्तात् वैय १, ७ : ८.  
 मातृ-घात- -तेन आग्नि २, ४, ८ :  
 १९.  
 मातृ-घ्न- -घ्नः शंघ ३७७ : १०.  
 मातृ-त्(म>)मा<sup>१</sup>- -मासु वौश्रौ  
 १२, ९ : १०<sup>१</sup>.  
 मातृ-त्स(ः) आश्रौ ९, ३, २०; आश्रु;  
 शंघ ७०; विध २४, १०; ५७,  
 ४; सुधप ८८ : ८; या १४, ५<sup>२</sup>.  
 मातृ-त्व- -त्वात् वृदे ६, ११; -त्वे  
 वृदे ६, ३८.  
 मातृ-नामन्<sup>३</sup>- -मभिः वैताश्रौ ५,  
 १०; कौसू ९४, १५; ९५-९६, ४;  
 १०१, ३; ११४, ३; अप ३३, ५,  
 ६; -मा अप ३२, १, ४; अशां  
 २३, ११; अन्नभू २<sup>३</sup>; अन्न ४, २०;  
 -मानि कौसू ८, २४; १३६, ९;  
 अप ३२, १, ४; ३३, ६, २; -म्नोः  
 कौसू २६, २९.  
 मातृनाम-गण- -णस्य अन्नभू  
 २<sup>३</sup>; -णेन अप १९<sup>३</sup>, ४, २.  
 मातृनाम-देवता- > <sup>४</sup>त्व-  
 -स्यम् अन्न ८, ६.  
 मातृनाम-दैवत- -तम् अन्न ४,  
 २०.  
 मातृनाम-वास्तोष्पत्य- -स्यौ  
 अप ३३, १, ९.  
 मातृ-पक्ष- -क्षाणाम् शंघ ११६ :  
 ७६<sup>३</sup>; ११८<sup>३</sup>.

मातृ-पितृ-> <sup>५</sup>वृ-क<sup>६</sup>- -काणाम्  
 शंघ १६२.  
 मातृ-पितृ-तद्वन्धु- -न्धूनाम् गौघ  
 ६, ३.  
 मातृ-पितृ-भक्त- -क्तः काथ २७० :  
 ४.  
 मातृ-पितृ-भगिनी-गामिन्- -भी  
 शंघ ३७८.  
 मातृ-पितृ-भ्रातृ-सखि-मत्-  
 -मन्तम् वैश्रौ १०, ९ : १४.  
 मातृ-पितृ-वंश- -शः वाध ३, १९.  
 मातृ-पितृ-शुश्रूषु- -सुः अप ४४,  
 २, ४; शंघ १९९.  
 मातृ-पितृ-संयोग- -गात् या १४,  
 ६.  
 मातृ-पूर्वक<sup>६</sup>- -कम् अप ४४, १, ५.  
 मातृ-बन्धु- -न्धुभ्यः वाश्र १०, २;  
 वाध ८, २; गौघ ४, ५.  
 मातृ-भक्ति- -क्त्या विध ३१, १०.  
 मातृ-भगिनी-गामिन्- -भी शंघ  
 ३७८.  
 मातृ-मत्- -मन्तम् आपश्रौ २०,  
 २, १०; हिश्रौ १४, १, २४;  
 -मान् हिश्रौ ४, ३, १.  
 मातृ-म(य>)यी- -यो काश्र १८,  
 ३<sup>१</sup>.  
 मातृ-मातामह- -हानाम् गौपि २,  
 २, १७.  
 मातृ-मातृ<sup>१</sup>- -त्रोः पावा १, २, ६४.  
 मातृ-याग- -गम् शाश्र ४, ४, ३.  
 मातृ-युक्त<sup>१</sup>- -क्ते विध ५, ३४.  
 मातृ-योगीद्वरी- -रीम् शंघ ११६ :  
 २७.

मातृ-वंश- -शः शाश्र ४, १०, ६;  
 अप ४३, ४, ६०<sup>१</sup>.  
 मातृ-वत् वौश्रौप्र ५४ : ६; वौघ  
 २, १, ३८; वैघ २, ५, ३; ११, २.  
 मातृ-वल- -पागम ४३०.  
 मातृ-वृत्ति- -त्तिः वाध १९, ३०<sup>१</sup>.  
 मातृ-श्राद्ध- -द्धम् शंघ १९०<sup>२</sup>.  
 मातृ-प्व, स्वस्- -पा ८, ३, ८४;  
 -सा विध ३२, ३; -सारः सुधप  
 ८५ : २; -सारम् सुधप ८७ : ६१.  
 मातृप्वस्-पितृप्वस्-स्तुपा-भगि-  
 नी-भागिनेयी-गो-चण्डाली-  
 -लीनाम् सुधप ८७ : १.  
 मातृप्वस्-स्तुपा-भगिनी-भागि-  
 नेयी-चण्डाली- -लीनाम् सुध  
 ४८.  
 मातृप्वसेय-, मातृप्वस्वीय-  
 पा ४, १, १३४.  
 मातृ-सपिण्ड- -ण्डाः गौघ १५,  
 १३.  
 मातृ-सवर्ण- -र्णाः विध १६, २.  
 मातृ-स्थान- -ने कौश्र १, १८, २.  
 मात्र,त्रा- प्रश्र. ✓मा (वधा.) द.  
 ?मात्रातलेखनी<sup>१</sup>- -नीम् अप ३३,  
 ६, ७.  
 ?मात्वमध्यवच्छिच्चासौ<sup>१</sup> कौश्र २,  
 २, १३<sup>१</sup>.  
 मात्सी-, मात्स्य-, मात्स्यक-१-मत्स्य-  
 द.  
 माथ- ✓मथ द.  
 माथुर- मथुरा- द.  
 माद- ✓मद द.  
 मादद्य- मददिन्- द.

a) वैप १ द. । b) = ऋषि-विशेष- [अप. अन्न.], ऋषि-गण-, सूक्त- [वैताश्रौ. कौसू. प्रश्र.], देवता-  
 [अन्न.]. । c) 'भाग' इति पाठः ? यनि. शोधः । d) विप. (दोष-) । ततश्चागतार्थे ठञ् प्र. (पा ४, ३, ७८) ।  
 e) वस्. पूष. = षोडशमातृ-पूजन- । f) उप. (<✓मा [माने]) = परिच्छेत्- । g) = (मातृद्वेष्यक-) आक्षेप- ।  
 h) उप. = (धर्म्य-) शुल्क- । i) पाठः ? वाऽत्रा(त्र-आ)व<sup>३</sup> इति वा तत्रा(त्र-आ)व<sup>३</sup> इति वा गात्रा(त्र-आ)व<sup>३</sup> इति  
 वा संस्कृतुः टि. शोधाः । j) पाठः ? । सप्र. शाश्र २, ३, ५ हृदयदेशमभिमृशति इति पाठे. ।

मादन-, °दयित्- √मद् द्र.  
 मादाधि<sup>१</sup>- -वयः वौश्रौप्र ७ : ३;  
 ३२ : २.  
 ?मादानक<sup>२</sup>- >°क-श्रुत- -तम् कौसू  
 १२, १.  
 ?मादायिषु निस् २, १ : ३२.  
 श्मादि<sup>३</sup>- म- द्र.  
 र्मादि- √मा (वषा.) द्र.  
 ३मादि- -मादेः<sup>४</sup> द्राश्रौ ६, २, ९.  
 मादिन्- √मद् द्र.  
 माद्रकस्थलक- रमद्र- द्र.  
 माद्रकारि<sup>५</sup>- -रयः वौश्रौप्र २२ : ४.  
 माद्रकूलक- रमद्र- द्र.  
 माद्रपथि<sup>६</sup>- -वयः वौश्रौप्र १७ : ७.  
 ?माद्रव- -न्म् शंघ ११६ : ६२.<sup>६</sup>  
 माद्रशर्मि- मद्रशर्मन्- द्र.  
 माद्रुकस्थलक- मद्रुक- द्र.  
 माद्रय<sup>७</sup>- > °द्वय-तात्रलिप्त- -साः  
 अप ५६, १, ४.  
 श्माघव- १मधु- द्र.  
 र्मा-घव<sup>८</sup>- -न्म् आमिष्ट २, ५, ७ :  
 ११; वौश्र १, ११, ७; वैश्र ३,  
 १३ : ४; वौघ २, ५, २४.  
 माघवक- १मधु- द्र.  
 माघव्य- २मधु- द्र.  
 माघुकार्णिक- प्रमृ. १मधु- द्र.  
 माघुमत-, °तक- २मधुमत- द्र.  
 माघुर्य- १मधु- द्र.  
 माघूक- मघूक- द्र.  
 माघ्य-, °घ्यंदिन- प्रमृ. मय्य- द्र.

माध्यमेय<sup>९</sup>- -याः वौश्रौप्र ६ : ३.  
 माध्यस्थ्य-, °ध्यावर्ष- मय्य- द्र.  
 ?माध्वि<sup>१०</sup>- -०ध्वी आश्रौ ४, ७, ४;  
 शाश्रौ ५, १०, २१; वौश्रौ ७,  
 ३ : २; -ध्वीभ्याम् वौश्रौ ७,  
 ८ : २१; माश्रौ २, ३, ६, १४.  
 माध्वी- १मधु- द्र.  
 √मान<sup>१</sup> पाधा. भ्वा. श्रात्म. चुरा.  
 उभ. पूजायाम्; चुरा. श्रात्म.  
 स्तम्भे.  
 श्मान- √मन् द्र.  
 रमान<sup>१</sup>- -नः अत्राय ३, १०; -न्म्  
 शाश्रौ १२, १९, ४१; आपश्रौ  
 २१, १३, १४; १५; वौश्रौ  
 १७, ३१ : १८; १९, १ : ४;  
 २४, ६ : ४; ७ : ११; १२;  
 वैश्रौ १, ३ : १२; ११, ९ :  
 १२; कप्र १, ७, ४; अप २२,  
 २, ५; आपघ २, १८, १५<sup>६</sup>;  
 हिघ २, ५, ६८<sup>६</sup>; काशु ७, १५;  
 २०; २८; या ११, ५; -०नस्य  
 भाग २, ३ : १३<sup>१</sup>; -नात्  
 या ४, २५, २७; -नानि आपश्रौ  
 २१, १३, ८; ९<sup>१०</sup>; १०; कौसू  
 ८५, १; -ने वौश्रौ २१, १२ :  
 ११; हिपि १३ : ८; अप २५,  
 २, ४; आपघ २, १८, १७<sup>६</sup>;  
 हिघ २, ५, ७०<sup>६</sup>; या २,  
 २२<sup>१</sup>; पा ४, ३, १६३;  
 -नेन आपश्रौ २१, १३; १६;

वौश्रौ ६, २२ : १२; १८; हिश्रौ  
 ७, ४, ४१; अप २४, १, ४; वृदे ५,  
 १५३; या ३, १३; -नैः वौश्रौ  
 १३, २७ : ८<sup>१</sup>.  
 मान-कृत्- -र्तरि कप्र १, ६, ११.  
 मान-कृत्- -टम् अप ९, ३, ४.  
 मान-कृत्- -कृत् कप्र १, ६, ११.  
 मान-क्रिया- -यायाम् कप्र १, ६,  
 ११.  
 मान-पशवङ्ग- -ङ्गयोः पा ५, ३, ५१.  
 मान-मूल्य-मा(त्रा >)त्र- -त्रम्  
 वाघ १९, १५.  
 मान-योग- -गः वौश्र ३ : २४; ४ :  
 ४; ७; १०.  
 मान-विद्<sup>११</sup>- -वित् काशु ७, २९.  
 मान-हविर्-निवास-सामिधेनी-  
 -नीषु पा ३, १, १२९.  
 माना(न-अ)धिक,का- -कम् काशु  
 ७, ३०; -का काशु ७, १२.  
 माना(न-अ)भिमर्शन-वर्जम् काश्रौ  
 १०, ३, १६.  
 माना(न-अ)र्थे, र्था- -र्थाः वौश्र  
 १६ : ८; -र्थेषु आपशु ६, १४;  
 वौश्र १ : ७; हिश्र २, ४३.  
 मानो(न-उ)न्मान- -ने वाघ १९,  
 १३.  
 मानो(न-उ)पावहरण- -णे मीसू १०,  
 ६, ७७<sup>१०</sup>.  
 रमान्य<sup>१२</sup>- -न्यः वृदे ५, १५३; -न्यम्  
 वृदे ४, ५२.

a) = ऋषि-विशेष-। b) = वृक्ष-विशेष-। मादनक- [ < मदन-क- ] इति पाठः संभाव्येत (तु. B: [भू LIII] MW. च)। c) पृ १८८६ यनि. संख्यानिर्देशः द्र.। d) यन्मे मनः (तांवा १, ५, १७) इत्यादिरिति भावः (तु. सा. तांवा १, ५, १८)। e) = विश्वेदेव-विशेष-। सपा. अप्र २१९, २२ माद्रवाः इति, शक. भाद्रवाः इति च पाठे.। f) = मद्रजनपद- वासिन्-। g) वैप १, २४८०। द्र.। h) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र.। i) पा, पावा ३, १, ६ परामृष्टः द्र.। j) कप्रा.। k) = धिष्य-। < √मि इति हरदत्तः। l) पाठे. वैप १, १८९४ द्र.। m) पाठे. पृ १७५६ p द्र.। n) उप. < √विद् [ज्ञाने]। o) औ इति पाठः? यनि. शोधः (तु. जीसं.)। p) धमान- (अगस्त्य-ऋषि-) [वैप १] > संमितार्थे यत् प्र- उरसं. (पा ४, ४, ११)।

३मान<sup>a</sup>->मान-शब्द- -व्दे अप्रा ३,  
४, १.  
३मानः<sup>b</sup> आपश्रौ २१, १८, ८; द्राश्रौ  
११, १, ७; लाश्रौ ४, १, ७.  
मानङ्गि<sup>c</sup>- -ङ्गिः वौश्रौप्र २७: ९.  
मानतन्तव्य- -व्यः गोष्ट १, ६, १;  
द्राष्ट २, १, ५<sup>d</sup>.  
माननायन- २मनन- द्र.  
मानव- प्रमृ. मनु- द्र.  
मान-वल्ली<sup>e</sup>-(>वल्लक- पा.) पाग  
४, २, १२७.  
मानवी-, -व्य- प्रमृ. मनु- द्र.  
मानस- प्रमृ. √मन् द्र.  
मानसायन- २मनस्- द्र.  
मानसीन- √मन् द्र.  
मानसोत्तर<sup>f</sup>->रा(र-आख्या>)  
ख्य<sup>g</sup>- -ख्यम् शंघ ११६: १५.  
मानस्तोक-, -कीय- मा द्र.  
मानस्थ(ल>)ली<sup>h</sup>-(>स्थलक-  
पा.) पाग ४, २, १२७.  
मानस्य- २मनस्- द्र.  
मानायन- मन- द्र.  
मानाप्य-, मानाप्यायनी- मनु- द्र.  
१, २मानिन्- √मन् द्र.  
मानिस्वाङ्ग- -ङ्गानि अप्र ६८, १, ९.  
मानुष-, -धी- प्रमृ. मनुस्- द्र.  
१मानुष्य- मनुष्य- द्र.  
२मानुष्य- २मनुस्- द्र.  
मानुष्यक-, -प्यलोक- मनुष्य- द्र.  
मानोङ्क- √मन् > मनो-ङ्क- द्र.  
मा(म-अ)न्त- म- द्र.

मान्तव्य-, -व्यायनी- २मनु- द्र.  
मानत्रवर्णिकी- √मन् द्र.  
मान्त्रित-, -व्य- मन्त्रित- द्र.  
मान्थाल<sup>i</sup>- -लाः भाशि ५७.  
मान्थ्य- √मथ् द्र.  
मान्दा<sup>j</sup>- -न्दाः आपश्रौ १४, १८,  
१××; वौश्रौ १२, ८: १३××;  
वाश्रौ ३, ३, २, १६; हिश्रौ १३,  
५, १४; १५, ५, ४××; आम्रिष्ट;  
-न्दासु<sup>k</sup> आपश्रौ १२, ८, २;  
वौश्रौ १४, १२: ९; वैश्रौ १५,  
१०: ३; हिश्रौ ८, २, ३८.  
मान्दार्थ- मन्दार- द्र.  
मान्य-, मान्द्र- √मद् द्र.  
मान्द्रित-, -व्य- मन्द्रित- द्र.  
मान्घातकायन-, -तकि- मन्घातक-  
द्र.  
मान्घातु<sup>l</sup>- -तुः वौश्रौप्र २२: ३.  
मान्घातृ<sup>m</sup>- -तारम् आपश्रौ २४, ७,  
१२<sup>n</sup>.  
२मान्घात्र- -त्र आपश्रौ २४,  
७, १२<sup>o</sup>; ८, १<sup>p</sup>.  
मान्घातृ-वत् आपश्रौ २४, ७, १२;  
८, १.  
१मान्घात्र<sup>q</sup>- मन्घातृ- द्र.  
मान्घुक- मन्धुक- द्र.  
मान्घूप<sup>r</sup>- -पः वौश्रौप्र २२: ३.  
१मान्य- √मन् द्र.  
२मान्य<sup>s</sup>- -न्यः ऋअ २, ८, ६७.  
मान्यव- √मन् > मन्धु- द्र.  
मापयित्वा √मा (वधा.) द्र.

मामक-, -की-, -कीन- अस्मद्- द्र.  
मामण्ड<sup>t</sup>- -ण्डाः वौश्रौप्र १७: १.  
मामतेय<sup>u</sup>- -यः वाधूश्रौ ३, १४: ७.  
मामन्थरेयण<sup>v</sup>- -णाः वौश्रौप्र १२:  
१.  
मामहान- √मंह द्र.  
मामिका- अस्मद्- द्र.  
मायते निघ ३, १९.  
माया<sup>w</sup>- पाठ ४, १०९; पाग ४, २,  
९७<sup>x</sup> ५, २, ११६; -यया  
माश्रौ ४, ६, ३; १०, ९, २<sup>y</sup>;  
शाश्रौ १६, ६, १<sup>z</sup>; आपश्रौ;  
लाश्रौ ९, १०, १२<sup>aa</sup>; वाध ६,  
५; वृदे २, ४३; -या सु २५,  
१; २; अप ४८, ८४<sup>ab</sup>; निघ ३,  
९<sup>ac</sup>; -मायाः निस् ७, ११: २०;  
अप्राय ६, ९; या १२, १७<sup>ad</sup>; शुप्रा  
४, २७; -याम् आश्रौ १०, ७,  
७; शाश्रौ १६, २, २१; वौश्रौ;  
या ७, २७<sup>ae</sup>; -यायाः अप्रा  
३, १, ६<sup>af</sup>; -यायाम् पा ४,  
४, १२४.  
माया-देव<sup>ag</sup>- -वाः हिर्य १, १४; ४.  
माया-वल- -लात् वृदे ७, ८८.  
माया-भेद<sup>ah</sup>- -न्द्म् ऋअ २, १०  
१७७; वृदे ८, ७५; -दे वृदे ८  
७६.  
माया-वत्- -वान् ऋप्रा ४, ७३.  
माया-विन्- पा ५, २, १२१; -विनः  
काण्ड ४०: ७<sup>ai</sup>; -विनम्  
वाध ६, ५; -विनौ ऋअ २,

a) = [यजमानादि-शब्दानाम्] उत्तरांश- । b) पाठः ? । = सपा. जै १२३ जैमि २, ४५ । हिश्रौ १६,  
६, १५ तु आनः इति पाभे. ( तु. धन्वी ) । c) = ऋपि-विशेष- । d) 'दन्त' इति आन., old. च ।  
e) = देश-विशेष- । f) = पर्वत-विशेष- । g) वसः । h) मानक<sup>o</sup> इति [पक्षे]-पागम., माप<sup>o</sup> इति पाका-  
पासि. । i) वैप १ द्र. । j) पाभे. वैप १, २४८१ ० द्र. । k) संस्कर्तुः टि. भूयान्-पाभे. । l) पाभे.  
पृ १९३२ । द्र. । m) पृ १९३२ निराकृतं द्र. । n) पृ १९३२ यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । o) वैप १  
२४८१ ७ द्र. । p) मावा- इति पाका. पागम. । वामा- इति वामनः ( तु. पागम. ) । q) = नगरी- इति पागम. ।  
r) पाभे. वैप १, २४८२ j द्र. । s) नाप. । वस. । t) विप. ( [मायाभेद-देवताक-] सूक्त- ) वस. ।

१०,५६२; वृदे ७,८६.  
 मायिक- पा ५,२,११६.  
 मायिन्- पा ५,२,११६; -फयिनः  
 वीगृ ३, ११, ४; ऋप्रा २, ४५;  
 -फयिनम् आश्रौ ८,८,२; शाश्रौ  
 १०,५,८.  
 मायु- √मा (शब्दे) द्र.  
 मायुक- √मि,मी द्र.  
 मायूरकर्ण- १मयूर- द्र.  
 मायोभव- , भन्य- मयस्- द्र.  
 मारण- √मृ द्र.  
 मारायण- -णाः वीश्रौप्र ४१ : ८.  
 मारिपाभगि- -गिम् वाधूश्रौ ४,  
 १०८ : १६.  
 मारी- √मृ द्र.  
 मारीच- , चि- मरीचि- द्र.  
 मारुक- √मृ द्र.  
 माखत- प्रमृ. मख्त- द्र.  
 मार्कण्डेय- मृकण्ड, गडु- द्र.  
 मार्कायण- -णाः वीश्रौप्र ३ : ११;  
 ४ : २.  
 मार्कूल- पाठमोह २,३,११२.  
 √मार्ग पाधा. चुरा. उम. अन्वेपणे.  
 श्मार्ग- -र्गः अप ५०, ४, २; ५८<sup>३</sup>,  
 ४, १९; वैध १, ११, २; नाशि  
 १, ६, १६; -र्गम् अप ५०, ४, ३;  
 -र्गे माय २, १० : १३; हिच २,  
 ९, ८; अप ५२, २, ४; ७२, ३, ५;  
 -र्गेण वैश्रौ २०, १९ : ६; -र्गेषु अप  
 ५२, १२, २.  
 मार्गक्षेत्र- -त्रे शंघ ३०८; ३१०;  
 -त्रेभ्यः वाध १६, ११.  
 मार्ग-ग- -गाः वैध १, १०, २; ८.

२मार्ग- मृग- द्र.  
 श्मार्गपाली<sup>१</sup>- > ल्य(ली-अ)हन्-  
 -हि कप्र ३, ७, ८<sup>१</sup>.  
 श्-२मार्गशीर्ष- , मार्गिक- मृग- द्र.  
 मार्गीयव<sup>१</sup>- -वम् लुस् ३, १० : २३;  
 -वस्य लाश्रौ ६, ११, २.  
 मार्ग्य- √मृज् द्र.  
 √मार्ज पाधा. चुरा. पर. शब्दे.  
 मार्जन- प्रमृ. √मृज् द्र.  
 श्मार्जार<sup>६</sup>- पाठ ३, १३७<sup>१</sup>; -रः शंघ  
 ३७७ : १५; विघ २३, ५२; -रैः  
 शंघ ४३१.  
 मार्जार-नकुल-मण्डूक-श्व-सर्प-गर्द-  
 भ-चराहा(ह-अ)श्वा(श्व-आ )  
 दि- -दिषु वैध २, ११, ९.  
 मार्जार-मुख-संस्पृष्ट- -ष्टम् ताध  
 १४, २७.  
 मार्जार-मूषक-स्पर्श- -शै कप्र १,  
 २, १४.  
 मार्जार-लिङ्ग-> ङिन्- -ङिनः  
 विघ ९३, १०.  
 मार्जार-वत् अप ७१, १३, १.  
 मार्जारा(र-आ)दि- -दिभिः वैश्रौ  
 २०, ३६ : ८.  
 श्मार्जार-( >मार्जार्य- ) मडार-  
 टि. द्र.  
 मार्जालीय<sup>१</sup>- पाठ १, ११६; -वः  
 शाश्रौ ६, १२, २१<sup>१</sup>; वीश्रौ ६,  
 २७ : ३२××; माश्रौ; -यम्  
 आश्रौ ५, ३, १७; शाश्रौ; -यस्य  
 शाश्रौ ६, १३, १०; -ये आश्रौ  
 ६, १०, २१; ९, २, १७; शाश्रौ.  
 मार्जालीय-देश- -शम् काश्रौ २६,

७, ३१; -शै शाश्रौ १०, २१,  
 ११; १३, ११, ३; आपश्रौ.  
 मार्जालीय-न्यन्त- -न्ते आपश्रौ  
 १८, ७, २; २१, १८, ७; वैश्रौ  
 २१, ८ : ७; हिश्रौ १३, २, ३१;  
 १५, ५, ३७.  
 मार्जालीय-सदेश- -शै लाश्रौ ८,  
 ८, ४.  
 मार्जालीया(य-अ)न्त- -न्ते वाश्रौ  
 ३, २, ५, ४१.  
 मार्जाल्य<sup>१</sup>- -ल्यः वीश्रौ २८, २ : ४५<sup>१</sup>।  
 मार्जित- √मृज् द्र.  
 मार्डीकव- , वायन- मृडाकु- द्र.  
 मार्डीक- √मृद् द्र.  
 मार्तण्ड<sup>६</sup>- पावाग ६, १, ९४; -ण्डम्  
 आमिष्ट २, ४, ११ : १३; शंघ  
 ११६ : ४४; -फण्डाय अप १४,  
 १, ७; १७, १, ८.  
 मार्त्तिक- √मृद् द्र.  
 मार्त्यव- , मार्त्वी- , मार्त्य-  
 √मृ > मृत्यु- द्र.  
 मार्द- रमृद- द्र.  
 मार्दव- √मृद् द्र.  
 मार्दायन- रमृद- द्र.  
 मार्प<sup>१</sup>- -०र्ष काय २४, ९.  
 मार्पण्य<sup>६</sup>- -ण्याः वीश्रौप्र ११ : २.  
 माल- पाठ २, २८; पा, पाग ४, २, ७५.  
 मालक- पाग २, ४, ३१<sup>३</sup>; ४, १, ४१.  
 मालकी- पा ४, १, ४१.  
 मालकुज<sup>१</sup>- -जः वीश्रौप्र २७ : ३.  
 मालत- पाठ ३, ११०; पाग ४,  
 १, ४१.  
 मालती- पा ४, १, ४१.

a) = ऋपि-विशेष- । b) = पयिन्- । c) उप. < √गम् । d) अर्थः व्यु. च ? । = सुखरात्रि-  
 प्रतिपद्- इति गोष्ट. भाष्यम् । e) ल्येऽहि इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. भाष्यम् [गोष्ट ३, ६, १४]) । f) = साम-  
 विशेष- । g) = विडाल- । h) < √मृज् । i) वैप १ द्र. । j) मर्जा इति पाठः ? यनि. शोषः  
 (तु. ऋ ५, १, ८) । k) वैप १, २४८३ h द्र. (वैतु. पाशे. < मृताण्ड- इति) । l) = भाद्रणीय-पुरुष- ।  
 m) = प्रामान्तरालाटवी- इति पागम. ।



मालति- पाउवृ ४,५९.

मालव<sup>३</sup>- पाउभो २, ३, १३४; पाग ४,२,५३<sup>३</sup>; -वान् अप ५०, २, ५.

१मालवक- पा ४,२,५३.

२मालवक<sup>०</sup>- -कः वैध ३, १२, २.

माला<sup>१</sup>- पाउ २, २८<sup>०</sup>; पाग ५, २, ११६; १३१; ६, २, ८५; ८८; पावाग ५, १, १२४<sup>१</sup>; -लया वीगृ १,५,२९; -ला आगृ ३, ८, १८; -लाम् आमिगृ १, ३, १ : ५; मागृ १, २, १५; वागृ ९, ११<sup>२</sup>†; कौस् ३६, १६××; अप; वाघ १२, ३९; वीघ २, ३, ३०.

माल-भारिन्- पा ६,३,६५.

माला(ला-अ)ञ्जन- नम् अप ६८, २, २६.

माला-निष्प्रमन्द<sup>६</sup>-दन्तधावन-केश-शम् कौस् ३६, १५.

माला-प(द)दी- पाग ५,४,१३९.

माला-पृष्ठ- ष्टे अप २०, १, ३.

माला-प्रस्थ- पा ६, २, ८८.

†माला(ला-अ)भ्यञ्जन- नम् कौस् ९२, २२.

माला-वत्- पा ५, २, ११६.

मालिन्- पा ५, २, ११६; १३१; -ली आपघ १, ८, २; हिघ १, २, ९.

मालो(ला-उक्त>)क्ता- -क्ताम् आगृ ३, ८, १७; गोयु ३, ५, १७.

१माल्य- पावा ५, १, १२४; -ल्यम् मागृ २, १४, २८<sup>१</sup>; अप १, ४५, ७; ३०<sup>३</sup>, २, ५××; शंघ ३४७; विघ ७१, ११; -ल्येन वीगृ २, ५, ५४; ३, ११, २; -ल्यैः कौगृ १, १२, २; गौपि १, ४, १७; अप ४, ५, ५××.

माल्य-वृत्<sup>१</sup>- -वृन्तम् शंघ ११६ : ८.

माल्य-ह(स्त>)स्ता<sup>१</sup>- -स्ता अप ३०<sup>३</sup>, २, ७.

माल्या(ल्य-अ)नुलेपन- नम् अप ६८, १, १२.

मालिन्य- २मलिन- द्र.

मालिम्लव- मलिम्बु- द्र.

मालु- पाउभो २, १, ५.

मालूर- पाउभो २, ३, ५८.

२माल्य<sup>१</sup>- -ल्याः वीश्रौप ७ : २.

माल्ल- मल्ल- द्र.

मा-वत्- अस्मद्- द्र.

मावा- (>मावेय-) माया- टि. द्र.

‡मावार्यम् भागृ २, ४ : १३.

‡मा वो रक्षो मनः<sup>१</sup> कौगृ ३, ५, ४†.

माशब्दिक- मा द्र.

१माप<sup>१</sup>म- पाउभो २, ३, १०५; पाग २, ४, ३१; ५, १, २०; ४, ३;

-पः वाघ १९, २१; विघ ४, ७; -घम् शंघ ३०४; ३०५;

-पाः वीश्रौ २६, २२ : १९;

वैश्रौ; -पाणाम् काशु ७, २८;

-पान् आपश्रौ १३, ५, ४†;

१६, ६, २; ३; वीश्रौ; -पेण आपश्रौ १९, २१, २; हिश्रौ २२, ४, २; -पेभ्यः आपश्रौ १५, १७, ८; भाश्रौ; -पेषु वीश्रौ १८, २३ : ११; -पैः वीश्रौ १०, ९ : १८××; गोयु; -घौ आगृ १, १३, २; जैगृ १, ५ : २.

माप-क- पा ५, ४, ३; -कम्, -काणि अप ३३, ३, २.

माप-कण<sup>१</sup>-मन्य<sup>०</sup>- -न्येन कागृ ४५, ५.

माप-कमण्डलु<sup>१</sup>- -लुम् आपश्रौ २२, २६, ५; हिश्रौ २३, ४, २१.

माप-कल्माप-मूल-फल- -लम् मागृ २, १४, २८.

माप-कोद्रव-गौरा(र-आ)दि- -दि कप्र १, ९, १०.

माप-धान्य- -न्यौ वैगृ ३, ११ : ४.

माप-पिष्ट- -ष्टानि कौस् ७१, ६.

माप-भग्न-मात्र<sup>१</sup>- -त्रम् आमिगृ २, ६, १ : ५.

माप-मत्स्य-मांस-भक्ष्याशन- नम्<sup>१</sup> आमिगृ २, ३, २ : ८; -नैः<sup>१</sup> जैगृ १, ६ : ८.

माप-मन्य- -न्यम् कौस् ७०, १२.

माप-म(य>)यी- -यीम् अप ३६, ५, ३.

माप-मांस-वर्जम् वैश्रौ ३, २ : ११.

माप-वर्जम् वाश्रौ १, १, २, ९.

माप-सक्तु- -क्तवः अप १, ३४, ४.

माप-स्मर<sup>१</sup>- -रान् कौस् ३६, १३<sup>६</sup>.

a) जनपद-विशेष- वा तद्वासिन्- वा तद्राज- वा । b) तु. पाका. । c) =जाति-विशेष- । d) =सख्ज- ।

e) <√मा(माने) । f) तु. पागम. । g) अर्थः? । h) =पर्वत-विशेष- । i) वस. । j) =ऋषि-विशेष- । k) पाठः? गावः अंशः (‡सः =रुक्थः [सपा. शांठ. अपि यनि. शोधः द्र.] ) न वः इति शोधः (तु. सपा. शांठ ३, ९, १) । l) =धान्य-विशेष-, परिमाण-भेद- । m) वैप १ द्र. । n) मापकण- =मापचूर्ण- ।

o) मलो. कस. । p) वस. उप. परिमाणेऽर्थे मात्रच् प्र. (तु. वीगृशे ४, ७, ३ \*मघं तु तन्मात्रम् इति पाभे.) ।

q) परस्परं पाभे. । r) = [पुनरङ्कुरित-] पकशुष्क-माघ- । पस. उप. (√सु>)सव-> \*सवावा[र-

> स्व [स्वा[र- [तु. दारिलः] >यनि. =\*अङ्कुर- । s) मापान् इति सा (भू [शौ ६, १३० ] ) पाभे. ।

१मापा(प-आ)ज्य<sup>२</sup> - ज्येन आप्रथौ  
 १, ३, २२; वैश्रौ १८, ३: ४;  
 हिश्रौ १५, १, ७१.  
 मापिक- पा ५, १, २०.  
 मापीण- पा ५, २, ४.  
 मापो(प-ऊ)ण, न]- पावा ८, ४, १०.  
 माप्य- पा ५, १, ७; २, ४.  
 रमाप<sup>२</sup>- पाग ४, १, ९६; -पा: क्रञ्च  
 २, ९, ८६; साञ्च २, २३६; ३८१.  
 मापि- पा ४, १, ९६.  
 मापशराविन्-> मापशरावि- पा  
 ४, १, ९६; -व्य: वौश्रौप्र ४१:  
 ४; द्राश्रौ ८, २, ३०; लाश्रौ  
 ४, ६, २१; निञ् ५, २: २६;  
 ८: १७.  
 माप-स्थ(त>)ली-( >स्थलक-)  
 मानत्पली- टि. द्र.  
 मास<sup>१</sup>- पा ६, १, ६३; मास: वौश्रौ  
 १२, ३: ३xx; नाश्रौ; सासाम्  
 हिश्रौ १८, ३, ८; अप; मासि  
 आश्रौ १२, ४, ३; शाश्रौ; भाग्य  
 २, ११ = १०<sup>१</sup>; हिग्य २, १०,  
 ६<sup>१</sup>; मासिऽमासि आश्रौ  
 १२, ६, १२; वौश्रौ; मा:सु लाश्रौ  
 १०, ६, १; निञ् ५, ३: ६; ४:  
 २; ६: १९; तैप्रा १६, १२<sup>१</sup>.  
 मासि-ग्रहण- णम् नीसु १०, ८,  
 २३; २७.  
 मासि-वृष्ट<sup>१</sup>- षम् वौश्रौ १६, १५:  
 ७.  
 मासि-श्राद्ध- षम् आम्रिग्य ३, ३, १:  
 २; ९; वौग्य २, ११, ६८; भाग्य  
 २, ११: १; वैग्य १, १: ७; ४, ७:  
 ९; हिग्य २, ५, ४; -दत्त्य आपग्य

२२, १; भाग्य २, १७: १५; -द्वे  
 आम्रिग्य ३, ३, २: ११; वौग्य १,  
 ८, १४; वैग्य ६, २०: १; आपघ  
 २, २०, १; -द्वेन आपग्य २२,  
 १२; भाग्य ३, १७: १२.  
 मासि-श्राद्ध-वृत्त वौपि २, ११, २.  
 मास<sup>१</sup>- पाठभो २, ३, १६८; -स:  
 वाश्रौ १२, ४, १०; शाश्रौ; वा  
 ११, ५<sup>१</sup>; आज्यो ४, ४; -सम्  
 आश्रौ ९, ८, १xx; शाश्रौ; लाश्रौ  
 ४, ७, ११<sup>१</sup>; वौग्य १, ७, १४;  
 ३, १, १४; वौपि १, १७: ३५;  
 भाग्य ३, ८: ११; वैग्य २, ३: ५,  
 हिगि १४: १६; अय ५७, ४,  
 ७xx; वाघ ११, ७७xx;  
 शंघ ११६: ४७; ४१०; ४२६;  
 ४३१; ४३४; ४३६; ४३९;  
 ४४८<sup>१</sup>; विघ ७८, ५३; ८०, १;  
 ८२, ३xx; गौघ १२, २६xx;  
 -सम्-सम् काश्रौ २४, ४, १६;  
 -स्यो: वाश्रौ २, १७, १८;  
 ९, ३, २५; आपश्रौ २०,  
 २३, १२; वाधूश्रौ; -सस्य  
 आश्रौ १२, १, ५: ६; २, ५;  
 वौश्रौ; वाघ २, ४८; २३, ४५;  
 -सा: वाश्रौ १, ११, ७<sup>१</sup>xx;  
 शाश्रौ; वौग्य ३, १५, ५<sup>१</sup>;  
 वैग्य ५, १: ९; ११; वा ४, २७<sup>१</sup>;  
 वेज्यो २८; -साव आपश्रौ २०,  
 ७, ७; हिश्रौ १४, २, २०; द्राश्रौ  
 ८, ३, २७; लाश्रौ ४, ७, ८<sup>१</sup>; अप  
 ७१, ६, ६; वाघ २१, ७; २६, ४;  
 शंघ ३४२; वौघ ४, १, २९; विघ  
 ५५, १३; पावा ५, ४, ११६;

-सान् आश्रौ १२, ७, २xx;  
 शाश्रौ; आग्य ३, ५, १४; वौग्य ३,  
 ८, ३; १५, ३; शांघ ४, ३, ७xx;  
 पाग्य २, ११, १०xx; आम्रिग्य  
 ३, ७, २: १५, xx; काग्य ९,  
 १०xx; वौग्य १, ७, १६xx;  
 वौपि १, ११: २xx; भाग्य २, १:  
 १८; भाग्य १, ४, ७xx; वाग्य ८,  
 ७; वैग्य २, १२: २१; वैग्य २,  
 ८: २३<sup>१</sup>; द्राग्य ३, २, २४; कौसू  
 १३९, २०; क्रम २, ३, ३-८xx;  
 अय ७१, ४, ५; वाघ ४, ३३xx;  
 शंघ ४०३xx; आपघ १, ९,  
 ३xx; वौघ २, १, ४८xx;  
 विघ ३०, १; वैघ १, ७,  
 ६; हिघ १, ३, ३xx; गौघ  
 १६, २; वृदे ४, २४; -सानाम्  
 वौश्रौ १८, ५१: १६; २५; वाश्रौ;  
 -साग्याम् वाधूश्रौ ३, ६९: १८;  
 क्रम ६२, २, ६; -साय शाश्रौ  
 १८, २४, ६; वौश्रौ १८, २४: २;  
 -से शाश्रौ २, २, २; काश्रौ; पाग्य  
 १, १४, २xx; काग्य ३९, १;  
 काग्य ४३: ६; वैग्य ५, १२: २xx;  
 अप १, ३३, ८xx; विघ ९०,  
 २७; वैघ २, १२, ७; वा १४, ६<sup>१</sup>;  
 वासि २, ६०; वेज्यो ११; -सेऽ-  
 से वा ६, ३५; -सेन वौश्रौ  
 १८, ६: २२xx; वाधूश्रौ; वाघ  
 ४, ३०; शंघ ४४८; -सेम्य:  
 वौश्रौ २४, ३२: २०; वौग्य ३,  
 १०, ९<sup>१</sup>; शांघ २, १, ४<sup>१</sup>;  
 वैग्य २, १२: ११; अय २,  
 ५, २; वाघ ९, ११xx; वौघ

a) वैप १ द्र. । b) व्यप. [पा.], श्रुपिणर- [क्रञ्च. साघ.] । c) नाप-, शराविन्- इत्यत्य त्यन्ने  
 नापप<sup>०</sup> इति पागम. । d) पामे. वैप १, ७२७ III द्र. । e) विप. > नाप. = गवान्-अवन- । वल. ।  
 f) वैप १, २४८४ O द्र. । g) पामे. पृ १२४३ f द्र. । h) पामे. वैप १, २४८५ b द्र. । i) सान् इति  
 पाठ: ? यनि. शोघ: (तु. द्राश्रौ.) ।

२, १, ४७; -सेषु आपथ्रौ ७,  
२८, ६××; काठश्रौ ४५; वौश्रौ  
५, ५: १; माश्रौ ७, २३, ८;  
माश्रौ; -सेषु-सेषु माश्रौ १, ७,  
८, १८; -सै: आश्रौ १२, ३, ५;  
वौश्रौ २, १०: ५†××; आपथ्रौ;  
आमिग ३, १, १: १८†;  
वौग २, ११, २७†; भाग २,  
११: १७†; अप ७०<sup>२</sup>, २३,  
३; शंघ २१८; आज्यो १२, ११;  
-सौ शाश्रौ १३, २५, ४; आपथ्रौ  
१७, २६, ६××; वौश्रौ.  
-मास-कृत्- -कृत् या ५, २१६.  
मासकृद्-विग्रह- -हेण वृदे २,  
११२.  
-मास-क्षपण- > णिक- पागम  
३६०.  
-मास-नाण- -णानाम् वौश्रौ २६,  
१६: १.  
-मास-चतुष्क- -ष्केण या १४, ६.  
-मास-जात- पावा २, २, ३६.  
-मास-तनु- -न्वो: पा ४, ४, १२८.  
-मास-तम- पा ५, २, ५७.  
-मास-तुल्य- -त्यै: विध २२, २५.  
-मास-त्रय- -त्रेण या १४, ६.  
मास-द्वय- -यम् कप्र १, १०, ५.  
मास-द्वित्रिचतुष्पञ्चसंवत्सर-द्वादश-  
संवत्सर-परिमित- -तम् अप  
४०, १, ३.  
मास-नामन्- -मभि: आपथ्रौ ८, २,  
१८××; माश्रौ; -मानि आपथ्रौ  
१९, १२, ११; माश्रौ; -न्ना  
आपथ्रौ ८, २०, ८; माश्रौ ८,  
२३, ७; वैश्रौ.  
मास-निचय<sup>b</sup>- -य: विध ९४, ११.  
मास-परा(र्ध्व)<sup>b</sup>- -र्ध्वा<sup>b</sup>- -र्ध्वा<sup>b</sup> कौस

६७, ९.  
मास-पाक- मांसपाक- टि. द.  
मास-प्रमृति- -तिषु आपथ्रौ १६,  
१३, ५; वैश्रौ १८, ११: २१;  
हिश्रौ ११, ५, १७.  
मास-भाज्- -भाज: निस् १०, ८: २.  
मास-मात्र- -त्रात् या १४, ६;  
-त्रे लाश्रौ ८, ११, १३.  
मास-वर्ष- -र्षाणाम् वेज्यो ४४.  
मासवर्ष-नाणना- -नया विध  
२०, १५.  
मास-शब्द-वैयर्थ्य- -र्थ्यम् निस्  
५, ४: २.  
मास-शस्(ः)काश्रौ १७, ७, १४.  
मास-सव<sup>c</sup>- -व: वौश्रौ १८, ३:  
१३.  
मास-स्तोम<sup>c</sup>- -मा: शाश्रौ १४,  
७६, १.  
मासा( स-आ)दि-षण्मास-  
पर्यन्त- -न्तम् वैश्रौ २०, १५: ९.  
मासा(स-अ)नुमास-> ण्सिक<sup>d</sup>-  
-कम् कप्र २, ७, ६.  
मासा(स-अ)न्त- -न्ते द्राश्रौ ८, ४,  
१६; लाश्रौ ४, ८, १४.  
१मासा(स-अ)न्तर- -रे निस् ५, ४:  
३; -रेण अप ७०<sup>२</sup>, ७, २०;  
-रेषु वैताश्रौ ३६, ३.  
२मासा(स-अ)न्तर<sup>b</sup>- -रा: काश्रौ  
१५, ९, १६; -राणि काश्रौ १५,  
९, ७.  
मासा(स-अ)पवर्ग<sup>b</sup>- -र्गा: आश्रौ  
१०, १, १२; शाश्रौ १६, २०, ८;  
काश्रौ २३, १, १.  
मासा(स-अ)म्यवहार- -रेण विध  
४६, १४.  
मासा(स-आ)यतन<sup>b</sup>- -ना: आपथ्रौ

२२, १, १४; हिश्रौ १६, १, ११.  
मासा(स-अ)र्धमास- -सान् हिग्  
२, १७, २†.  
मासा(स-आ)वर्त-कारिन्- -रिण:  
लाश्रौ ४, ७, ६९.  
मासा(स-आ)वृत्त-कारिन्- -रिण:  
द्राश्रौ ८, ३, २५९.  
मासा(स-अ)ष्टक- -क्ता अप ७१,  
१४, २.  
मासाष्टक-युत- -तस्य अप ३६,  
२०, १.  
मासिक- -क: अप ५२, ५, ५;  
६८, २, ५९; -कम् आमिग ३,  
१, १: १; वौग ३, १२, १; हिग्  
२, १०, १; वृदे २, ५७; -के  
वैग ३, २१: ४; हिग् २, १४,  
१०; १५, ११; १४; शंघ ४३२.  
मासिक-श्राद्ध- -द्धम् आमिग  
३, १२, १: ५.  
मासिका( क-अ)र्ध- -र्धे विध  
२१, २१.  
मासिकार्थ-चत्- -चत् विध  
२१, १९.  
मासीन- पा ५, १, ८१; -नम् गोग  
४, ४, ४.  
मासे( स-इ)ष्टका- -का: वौश्रौ  
१९, ३: २९.  
मासो(स-उ)पवासिन्- -सिन: वैध  
१, ९, ४.  
मास्य- पा ५, १, ८१.  
?मासपूजाद्वाज्युदुलिकापि-  
ष्टका: वाश्रौ ३, २, ५, २६.  
मासर<sup>f</sup>- पाठमो २, ३, ६८; -र:  
आपथ्रौ १९, ४, ८; ५, ९; वौश्रौ  
१७, ३१: १८; हिश्रौ २३,  
१, ८; -रम् काश्रौ १९, १, २०;

a) पामे. वैप १, २४८५ b द्र. । c) =कृत-विशेष- । d) भवाऽर्थे ठक् प्र. ।

e) परत्सरं पामे. । f) वैप १ द्र. ।

आपश्रौ १९, ४, ७; वाश्रौ ३,  
२, ७, ३; वैश्रौ ११, ६ : ३; हिश्रौ  
१३, ८, ४१; -राणि वाश्रौ ३,  
२, ७, ८६; -रेण आपश्रौ १९,  
४, ६; ५, ११; वौश्रौ; -रैः वाश्रौ  
३, २, ७, ८५.

मासर-कुम्भ-म्भम् काश्रौ १९,  
५, १३; वैताश्रौ ३०, २२.

मास-वर्ष- प्रभृ. मास- द्र.

मासुरकर्ण- मसुर-कर्ण- द्र.

मासुराक्ष- मसुराक्ष- द्र.

मासूर- मसूर- द्र.

मासूरकर्ण- मसूर-कर्ण- द्र.

मास्य- मास- द्र.

✓माह् ( वधा. ) पाधा. भ्वा. उभ.

माने, माहते अप ४८, ३९<sup>क</sup>.

माहकस्थ(त्)ली- (>स्थलक-  
पा.) पाग ४, २, १२७.

माहत- ✓मह् द्र.

माहनी<sup>०</sup> कौसू १०८, २.

माहय्यव- महय्यु- द्र.

माहस-माहाकुल- प्रभृ. ✓मह् द्र.

माहाचित्ति- महाचित्त- द्र.

माहाजनिक- प्रभृ. ✓मह् द्र.

माहापुत्रि- महा-पुत्र- द्र.

माहाप्राण- प्रभृ. ✓मह् द्र.

माहित-, ल्य- महित- द्र.

माहित- ✓मह् द्र.

माहिन<sup>०</sup>- पाठ २, ५६; -नः निघ३, ३<sup>क</sup>

माहि(न>)ना-वत्- -वान् ऋप्रा  
९, ११<sup>क</sup>.

१-२माहिष-, ष्य- महिष- द्र.

माहिष्मती-, ष्येक- २महिष्मत्-  
द्र.

माहिष्य- महिष- द्र.

माहीयत्व[ल]- महीयत्व[ल]- द्र.

माहुः अप ४८, ७०<sup>क</sup>.

माहेन्द्र- प्रभृ. ✓मह् द्र.

✓मि(=✓मा [वधा.])<sup>१</sup> पाधा. स्वा.

उभ. प्रक्षेपणे, मिनोति काश्रौ ६,

३, ८; ८, ५, २६; ३०; १४, ३, १७;

१६, ८, १७; २३; आपश्रौ ११,

९, ४; ५; ९××; वौश्रौ; काशु

६, १०; निघ २, १९<sup>क</sup>; मिनृतः

हिश्रौ ७, ५, २०; ७, १२;

मिन्वन्ति आपश्रौ २०, १०, ४;

२२, ८, ६; ८; माश्रौ; ऋमिनोमि

कौश्रु ३, २, ५; शाश्रु;

ऋमिनोतु आपश्रौ ११, १०, १<sup>क</sup>;

वौश्रौ ६, २७ : ६<sup>क</sup>; वैश्रौ १४,

१० : १२<sup>क</sup>; हिश्रौ ७, ७, ८<sup>क</sup>;

जैश्रौ ६ : ७<sup>क</sup>; आश्रिण्ट; मिन्वीत

हिश्रौ १४, ३, १; मिनुर्यात्

आपश्रौ ११, १०, ७; १४, ५,

२२××; वौश्रौ.

मित्- मितः<sup>६</sup> आश्रिण्ट ३, ८, २ : ३५;

वौषि १, १५×३; वौशु १ : २७.

२मित्वा भाश्रौ ७, ८, १४.

✓मि, मी<sup>१</sup> (वधा.) पाधा. दिवा. आत्म.,

क्या. उभ. हिंसायाम्; चुरा. उभ.

गतौ, मिनाति ऋनिघ २, १४<sup>क</sup>;

१९; शौच ३, ८६; मिनन्ति

आपश्रौ ६, २२, १<sup>क</sup>; ऋमिनीम-

सि<sup>१</sup> वृदे ८, ४८; ऋप्रा १८, ५३;

अमिनात् या ५, ९<sup>क</sup>.

ऋमीमाय अप्रा ३, १, ७; शौच

४, ९६.

मीयते ऋआपश्रौ १०, १४, १०;

२१, १, ९; वैश्रौ १२, १२ :

१०; कौसू ४, १६.

ऋमायुक<sup>६</sup>- -कः अप ४८, ६७; निघ.  
३, २.

ऋमेनि<sup>०</sup>- -निः अश्र १२, ५(३)<sup>क</sup>;

निघ २, २०; -निम् वैताश्रौ-

३८, ६.

✓मिक्ष्(संमिश्रणे)<sup>०</sup>, ऋमिमिक्षताम्.

शाश्रौ ३, १८, १४; वौश्रौ १४,

१४ : ३५; द्राश्रौ ११, ४, ९;

लाश्रौ ४, ४, ८; अप्राय ४, १;

ऋमिमिक्षतम् काश्रौ २३, ३, १;

आपश्रौ २२, १९, १; हिश्रौ १७,

७, १०.

ऋमिमिक्षे<sup>१</sup> शाश्रौ ८, ४, १; शुश्रु<sup>१</sup>

२, ३२२.

मेक्षयति माश्रौ २, ५, १, ५;

मेक्षयेत् वौश्रौ २३, ६ : २.

मेक्षण<sup>०</sup>- -णम् आश्रौ २, ६, १४;

शाश्रौ ४, ४, २; काश्रौ ७, ५, १५;

आपश्रौ १, ७, ५××; वौश्रौ १, ४ :

९; १७ : १८××; माश्रौ; अप

२३, ४, ५; कप्र २, ५, १४;

१५; -णस्य वौश्रौ २०, १३ :

३०; २१, ३ : ३; -णानि

वौश्रौ ५, १ : ५; ३ : १४; ५ :

३; ८ : ३३; १० : ३; १८ : ३;

-णाभ्याम् गोश्रु ४, १, ६; २, १४;

द्राश्रु ३, ४, १८; -णे आपश्रौ १,

८, ३; ५; भाश्रौ १, ८, ३; १०,

१४, ११; हिश्रौ २, ७, १७; गोश्रु

४, २, २६; -णेन आश्रौ २, ६,

१२; शाश्रौ ४, ३, ७; काश्रौ ४,

१, ६; आपश्रौ १३, १३, १७;

a) घा. दृशिहाने वृत्तिः । b) शोघः वैप १, २४०४ k द्र. । c) वैप १ द्र. । d) या ७, २९ परामृष्टः  
द्र. । e) घा. वधे वृत्तिः । f) वैप १, २४८६ k द्र. । g) वैप १, २४८७ a द्र. । h) पा ६, १, ५०; ८, ४,  
१५ परामृष्टः द्र. । i) मिनति इति लघुशास्त्रीयः पाठः । j) पाभे. वैप १, ७५१ c द्र. । k) घा. अल्पीभावे वृत्तिः.  
( वैशु. दे. < ✓मि [प्रक्षेपणे] इति ) । = हस्व- । l) व्यु. पाभे. च वैप १, २४८८ a, b द्र. ।

वौश्रौ; कौश्र ५, २, १०; वैश्र  
६६: १२; आमिश्र २, ५, ८:  
१६××.  
मेक्षण-न्याय- -येन वौश्रौ २०,  
१३: ३१.

मेक्षयित्वा आपश्रौ १३, ९, ७; वैश्रौ  
१६, ११: ४.

✓मित्, मिह् (वधा.) पाधा. भ्वा. पर.  
सचने, मेहते अप ६८, २, ३१;  
मेहति काश्रौ ७, ४, ३२; वौश्रौ  
१३, ३८: ५; ३९: १८; मेहेत्  
वैश्रौ १५, १८: ३; आमिश्र २, ७,  
८: ६; शंघ ५०, २९.  
मिमिदिह् अप ४८, १२;  
निघ ३, १९.

अमेहयन् या ९, २३१.

मीह् - हम् अप ४८, ९०१.

मीह्व, क्ह्विस् - दुषः वौश्रौ  
५, ८: २; -दुषे आश्रौ २, ५,  
९, ३, ११, ११; ४, ८, ५; शाश्रौ ३,  
२०, २१; १३, २, २१; आपश्रौ ६,  
२५, ७; ९, ५, ११; १७, ६१;  
-माश्रौ ३, २, ११; ५, १२१;  
-हिश्रौ १५, २, ११; आपमं २, ११,  
४६; अप्राय २, ४१; -०ह्वः  
-आश्रौ ८, ८, २; शाश्रौ; -ह्वान्  
-आपमं २, १८, ११; भाग २, ८:  
८; हिश्र २, ८, ५; पा ६, १, १२०.

मीहुषी - षी आपमं २,  
१८, १२१; भाग २, ८: ९; हिश्र;  
-पीम् आपगृ २०, २; भाग;  
-पीत्ये आपमं २, १८, १२; भाग.  
मीहुष्-ट (<त)म- -०म

शुप्रा २, २०; -मम् तैप्रा ६, ५;  
-माय उस् ५, २१.

मेघ- पाग ४, ३, ४५; ५, १, ६६;  
३, १०३; ७, ३, ५३; -घः सु १३,  
२; अप; या १, २०; २, २; १६३;  
२१०××; -घम् या ५-६, १;  
७, २३; १०, ४; ९; ३२; ११;  
५०; -घस्य अप ४८, १००;  
या ६, २०; -घाः वौश्रौ २३,  
७: ६; अप; -घात् या ११,  
४७; -घान् अप ५५, १, ७; वृदे  
५, १६६; -घानाम् अप ६१,  
१, २०; निघ १, १०; या २,  
२२; ११, ३७; -घे विघ ९९, ९;  
वृदे ४, ४१; या २, ९; -घेन  
या १०, १२; -घेषु अप ६१, १,  
३; १०; २१.

मेघ-गर्जन- -ने काघ २७६: २.

मेघ-कर- पा ३, २, ४३.

मेघ-दुन्दुभि-निर्घोष- -प:  
याशि २, ५९; -पैः अप २१,  
७, २.

मेघ-नामन्- -मानि निघ १, १०;  
या २, २१.

मेघ-चारण- -णाः अप ६१, १,  
२२.

मेघ-सखि- -खा सु ३, २.

मेघ-स्थायिन्- -यी या १, २०.

मेघ-हन्- -हनम् या ७, २३.

मेघा(घ-अ)भिवृष्ट- -ष्टानाम् अप  
७०३, ५, १.

✓मेघाय पा ३, १, १७.

मेघायत्- -यते तैप्रा ३, ५१.

मेघे(घ-इ)न्द्रचाप-शम्पा (म्पा-  
२आ)घ- -घान् विघ १, १७६.

मेघ्य- पा ४, ३, ५४; ५, १, ६६;  
३, १०३; पाग ६, २, १३१; -घ्यः  
भाशि ३८१.

मेह- पा ३, २, १८२; पाग २, ४,  
३११; -हम् काश्रौ ६, ६, ३;  
आपश्रौ; -हस्य आपश्रौ १५,  
१५, १; माश्रौ ११, १५, २०;  
हिश्रौ २४, ६, १२; -ह्रे जैगृ २,  
४: ४; शुअ ४, २०८.

मेह- पाग ३, १, १३४.

मेहन- -नम् वाघ ६, १२<sup>म</sup>; -नात्  
आपमं १, १७, ५<sup>न</sup>; -ने शंघ  
५३<sup>०</sup>.

मेहमान- -नम् विघ ७१, २७.

✓मित् पाधा. तुदा. पर. उत्त्वेशे.

मित्- ✓मि (वधा.) द्र.

श्मित, ता- पाग २, १, ५९;  
-तः आश्रौ ३, ६, २४१; ८,  
१३, ३१; -तम् शाश्रौ १४,  
१६, ३; आपश्रौ १९, ३, ४१<sup>प</sup>;  
वौश्रौ; वैश्रौ ११, ५: ३१<sup>प</sup>;  
हिश्रौ १३, ८, २९<sup>प</sup>;  
वैघ २, ४, ६१; ३, १, ३१; आज्यो १२, ४<sup>प</sup>;  
-ता वाधूश्रौ २, १९: १; ऋप्रा  
१६, १२; -ताः लाश्रौ ८, ९,  
१०; निस् ५, १२, ९; वृदे ८,  
१०९; -ततासः आपश्रौ १७,  
१६, १९; वौश्रौ १०, ५३: ७, ८;  
वैश्रौ १९, ६: ११०; -ते वैश्रौ  
१६, १: ११; -तेषु शाश्रौ ५,  
१४, १.

a) या २, २१ पावा ६, १, १२ परामृष्टः द्र. । b) घा. याच्नायां वृत्तिः । c) =घन- । d) भाश्रौ.  
-प्रमृ. पाठः । e) वैप १ द्र. । f) पामे. वैप २, ३३३. मीहुषे ऐत्रा ५, २७ टि. द्र. । g) पामे. वैप १, १५६६ a  
द्र. । h) उप. =हस्तिन्- । i) वस. । j) विप. (विद्युत्-). वस. । k) 'पसंपातान् इति जीसं. । l) तु.  
पागम. । m) =मृत्- । n) =मेह- । o) पाठः? अपाने इति मदनपारिजातः (४६) । सप्र. वैघ २, ९, ५ गुदे इति  
-पामे. । p) पामे. वैप १, ११५६ ० द्र. । q) =स्त्वप- ।

मित-इक्षि(ख>)गा<sup>३</sup>- ग्गा निस् ६, १ : १३.

मित-दृ<sup>३</sup>- पाठ १, ३४; पावा ३, २, १८०; -<sup>३</sup>द्रव्यः आपथौ १८, ४, २१; या १२, ४४६.

मित-भोजिन्- -जिनः आपथ १, २५, ११; वौष २, १, ४१; हिष १, ७, ७.

मित-पच- पा ३, २, ३४.

मित-राविन्<sup>६</sup>- -विगः आ ११, १३.

मित-रोचिन्- -चिनः या ११, १३.

मित-शरण<sup>६</sup>- -णः कौसू २१, १६.

मिताक्ष- -आः वौश्रौप्र २५ : १.

मिताक्षर<sup>६</sup>- -रः निस् १, १३ : १९; -रे ऋप्रा १२, २६; -रेषु वृदे २, ९०; ९२; या १, ९.

मिता(त-आ)लम्भन<sup>६</sup>- -न्स् काश्रौ ९, ४, ८.

रमित- (>मैतायन-) मिसत- टि. द्र.

३मित<sup>६</sup>- -न्तः वैगृ ६७ : ५.

मितकुम्भ- -म्माः वौश्रौप्र ४१ : ७.

मित्र,त्रा (वप्रा.)<sup>३</sup>- पाठ ४, १६४; पाग ४, १, ९९<sup>१</sup>; २, १२७<sup>१</sup>; ३, ५४; -<sup>३</sup>न्त्र आश्रौ ३, १२, ९; ४, ११, ६; शाश्रौ ४, १०, १<sup>६</sup>; काश्रौ; -<sup>३</sup>न्त्रः आश्रौ २, ११, २××; शाश्रौ १०, १५, ४९; आपथौ ९, २, ६<sup>३१</sup>; भाश्रौ ९, ३, ८<sup>३१</sup>; नाश्रौ ३, २, ८<sup>३१</sup>; हिश्रौ १५, १, ४५<sup>३१</sup>; पागृ १,

५, १०<sup>६</sup>; आश्रिगृ १, ५, २ : २७<sup>६</sup>; वैगृ १, १७ : ८<sup>६</sup>; ५, ४ : १०<sup>६</sup>; अग १, ४, ४९<sup>३</sup>××; ङृदे २, ४९; ५, १४७<sup>३</sup>; १४८<sup>३</sup>; शुश्र ४, १४१<sup>६</sup>; या २०, २१<sup>६</sup>; २२<sup>३१</sup>; वेज्यो<sup>३</sup> २०; ३३; -<sup>३</sup>न्त्रम् आश्रौ २, ११, ४; ५, ५, १८××; शाश्रौ; पागृ २, ७, १८; आश्रिगृ ३, २, ४ : १२<sup>३</sup>; १५<sup>३</sup>; ६ : १७<sup>३</sup>; २०<sup>३</sup>; ७ : १६<sup>३</sup>; १७; १९<sup>३</sup>; अशां २, ५<sup>३</sup>; शंघ ११६ : ४३; ५८<sup>३</sup>; विघ ५०, १०; सुघप ८८ : १०<sup>६</sup>; या ७, १८; १४, १; -<sup>३</sup>न्त्रयोः<sup>३</sup> आश्रौ ७, ५, ९; शाश्रौ ७, ११, ४; १२, १, ३; ऋप्र २, ७, ६६; ऋप्रा २, ६१; -<sup>३</sup>न्त्रस्य आश्रौ १, १३, १; ६, ५, १८××; शाश्रौ; वृदे ८, १०७<sup>३</sup>; वा २, १३<sup>३</sup>; १२, १६; -त्राणान् जैगृ १, १९ : १५<sup>३</sup>; ऋप ६७, ५, १; -त्राणि विघ ७८, २२; -त्रात् अत्र १९, १६<sup>३</sup>; -त्राम्<sup>३</sup> आपथ ३, १२; -<sup>३</sup>न्त्राय आश्रौ ३, ११, २; ५, १०, २८; ७, ५, ९; शाश्रौ; नाश्रौ ३, २, ८<sup>३</sup>; अत्राय ४, ३<sup>३</sup>; -त्रे आश्रौ ७, १०, ५<sup>३</sup>; शाश्रौ १०, ४, ५<sup>३</sup>; विघ ३, ७४; ऋप्र २, ५, ७२<sup>३</sup>; ऋत ५, १, ५; पा ६, ३, १३०; पावा ६, २, १६५;

-<sup>३</sup>न्त्रेण आगृ २, ९, ५; आश्रिगृ; -त्रेभ्यः कौसू १६, १८; -त्रैः शंघ २६४.

मैत्र(वप्रा.)<sup>३</sup>- पावा ५, ४, २६; -त्रः शाश्रौ ३, १७, १०; १४, १०, १६; काश्रौ; वाघ २६, ११<sup>६</sup>; विघ ५५, २१<sup>६</sup>; आज्यो १, ७<sup>३</sup>; ९, ४<sup>३</sup>; -त्रम् काश्रौ २५, २, ११; आपथौ; अप ४१, ५, ७<sup>३</sup>; आज्यो २, ३<sup>३</sup>; ९, ९<sup>३</sup>; -त्रस्य आपथौ १८, ११, २३; वौश्रौ; अशां ६, १<sup>३</sup>; -त्राः वैगृ ३, १७ : १४; -त्राणि आज्यो २, ३; -त्रात् आपथौ ६, २०, २<sup>३</sup>; -त्रान् काश्रौ ३, ३, १, ५४; अष ८, २, ४<sup>३</sup>; -त्रे विघ ७८, २२<sup>३</sup>; आज्यो २, ३<sup>३</sup>; ९, ९<sup>३</sup>; १०, १०<sup>३</sup>; ११, ५<sup>३</sup>; -त्रेण काश्रौ ४, १५, १८<sup>३</sup>; आपथौ; आपनं १, ७, १०<sup>३</sup>; कागृ २६, ६<sup>३</sup>.

मैत्री<sup>३</sup>- -त्रिया हिश्रौ ११, ६३; -त्री ऋप्र २, १, १५१; वृदे; नाशि १, २, १०<sup>३</sup>; -त्रीनिः आपथौ १६, ५, १०; वैश्रौ १८, २ : २; वौष २, १०, ६२; -त्रीम्वान् वैश्रौ १३, ५ : ९; वौष २, ४, ११; -त्रीम् वौश्रौ २४, २२ : १०; वृदे ४, १७; -त्र्यः आश्रौ ७, ५, ९; -त्र्या आपथौ ६, २६, ७; १५, ४, ४;

a) वस. उप. = २दक्षिणा-। b) उत्त. उप. < √दृ। c) उत्त. उप. < √ह। d) वस. उप. = वृह-। e) वस.। f) पूष. [प्रकरणतः] = लोम-। g) = विनायकाऽन्यतम-। h) वैप १ द.। i) वृ १२५५ b द.। j) वृ. टि. मित्रवर्ध-। k) पामे. वैप १, २४९१ b द.। l) पामे. वैप. १, ८१२ m द.। m) = अनुराधानलत्र-देवता-। n) = द्वादशादित्याऽन्यतम-। o) = विराट्-देवता-। p) = मैत्री-। q) = [मित्रवर्ता-] कन्या-। r) पामे. वैप १, २४९३ b द.। s) त्वाथे प्र.। t) = सुहृत्-विशेष-। u) = नक्षत्रवर्ग-विशेष-। v) = अक्षरदैवत-विशेष-। w) = सुहृद्-। x) पामे. वैप १, २४९७ c द.। y) = मूर्च्छना-विशेष-।

वैश्री २०, ५:७; २१, १६: ११.

मैत्र-कठा (ठ-आ)पस्तम्ब-  
सूत्र-त्रेषु काठश्री ४.

मैत्र-पात्र-त्रम् हिश्री १३,  
४, २३.

मैत्र-युक्त-क्तम् आज्यो ५,  
५.

मैत्रा(त्र-अ)नुवाक->

किक-कः मैत्र ३३.

मैत्रो(त्र-उ)त्तर-रेषु अप  
३१, ५, २.

मैत्रक-पा ४, २, १२७.

मैत्रायण-पा ४, १, ९९; पाग  
४, २, ८०<sup>b</sup>.

मैत्रायणक-पा ४, २, ८०.

मैत्रायणीय<sup>c</sup>-याः चव्यू  
२:४;६.

मैत्रायणीयक<sup>d</sup>-के वृदे  
२, १३८.

मैत्रायणीय-ब्राह्मण-

-णम् वौशु ८:९.

मैत्रायणीय-सूत्र-त्रस्य  
वागृ १, १.

मैत्रायणि<sup>e</sup>-णिः मागृ १, २१,  
१३; वागृ ९, १.

मित्र-कर्मन्-र्म गौध १५, १२.

मित्र-कार्य-र्याणि आज्यो २, ३.

मित्र-तूर्य<sup>f</sup>-र्याय अपरा ३, २, १२१.

मित्र-दुह-धुक् शंघ ३७७:७;  
३९०; ४१४; भाशि १७१.

मित्र-धा->धेय<sup>g</sup>-पावा ५, ४,  
३६.

मित्र-धिति<sup>h</sup>-तये निम् १, ७: ६१.

मित्र-भृत्<sup>i</sup>-भृत्: वीश्री १३,  
३८:९; गो २, ३१; अत्राय  
६, २.

मित्र-महस्<sup>j</sup>-हः आपश्री ४,  
१५, १३; १४, २९, ३; भाश्री.

मित्र-वत् शंघ १३५.

मित्र-वत्-वत् आश्री ४, १२, २३;  
-वान् कौगृ ३, १२, २९.

मित्र-वर्ग-र्गः आज्यो ९, ४; -र्गः  
आज्यो ११, ५.

मित्र-वर्धन-नः<sup>k</sup> आपश्री २२,  
२६, १६; वीश्री १८, १०: १८;

हिश्री २३, ४, ३०.

मित्र-वि(न्द>)न्दा<sup>l</sup>-न्दा आश्री  
२, ११, ११; काश्री ५, १२, ११;

-न्दायाः शाश्री ३, ७, १.

मित्र-विरोध-धे अप ७२, ३, ११.

मित्रा<sup>m</sup> मित्रा ऋप्रा ४, ९२१

मित्रा(त्र-अ)तिथि<sup>n</sup>-थौ ऋप्रा २,  
१०, ३३; वृदे ७, ३५.

मित्रा(त्र-आ)दि-द्वयः वैश्री २०,  
१९:३; -द्विभ्यः वृदे ३, १२७;

-दीन् वृदे ३, ५१; अत्र ३, ८.

मित्रा-वृहस्पति->मैत्रावार्हस्पत्य,

त्या<sup>o</sup>-त्यः काश्री १५, ३, २६;

-त्यम् आपश्री २२, २५, ११;

वीश्री; -त्यस्य आपश्री २२, २५,  
१६; वीश्री २२, १७: २०;

हिश्री २३, ४, १०; -त्या आपश्री

१८, ११, ८; वाश्री ३, ३, १,

४१६; -त्वे वीश्री २४, ३: ९;

-त्येन वाश्री ३, ३, १, ५७.

मित्रा(त्र-अ)मित्र-त्रयोः पा ५,  
४, १५०.

√मित्राय>मित्रायु-युवः  
ऋप्रा ९, २४१.

मित्रा(त्र-अ)र्यमन्-रणोः साश्री १,  
२०६; -मापौ वृदे ६, ८१.

मित्रा-वरुण-पा, पाग २, ४, १४<sup>1</sup>;  
-णयोः आपश्री ३, १, १६; १७;

शाश्री; आमिगृ २, ५, १२: २<sup>m</sup>;

वाध ३०, १११; या २, १३; ५,  
१४; -णा आपमं १, ७, १२; १४, १;

कौसू; या ११, २३<sup>1</sup>; -णोणा  
आश्री २, १४, ११; शाश्री;

आपश्री १२, १४, १२<sup>m</sup>; हिश्री  
८, ४, १४<sup>m</sup>; -णाम्याम् आश्री

६, ११, १६<sup>1</sup>; शाश्री; काश्री ९,  
१, १५; वीश्री १७, ५१: १३;

-णो आश्री ४, १२, १; शाश्री;  
काठश्री १३०; १३१; वाधूथी ४,

८३: १०; वृद्व ४, १८५; या ११,  
२३; पि ३, ६३; उनिम् ८:

१९; -णो आश्री २, ५, २;  
१२; शाश्री.

मैत्रावरुण<sup>o</sup>-णो आश्री  
१२, १५, २; आपश्री; -णः आश्री

३, २, ४××; शाश्री; वीगृ ३, १०,  
६; वृदे ८, १२०; साश्री १, २६;

३८; ४५; या ५, १४<sup>1</sup>; -णम्  
आश्री २, १४, १०××; शाश्री;

-णस्य आश्री ५, ३, २३××;  
शाश्री; मीसू ४, २, १६<sup>1</sup>;

a) = अनुराधायां तिष्ठषु उत्तरासु चेति भावः । b) अर्थः ? । c) = शाखा-विशेषः, तदर्थेत्- वा ।

d) चरणे वृज् प्र. (पा ४, ३, १२६) । e) = आचार्य-विशेषः । अपत्यार्थे फिज् प्र. उत्सं. (पा ४, १, १५४) ।

f) वैप १ द्र. । g) वैप १, २४९४ f, i द्र. (वैतु. पाप्र. धेयः प्र. इति) । h) पाभे. वैप १, २४९५ a, परि. च द्र. ।

i) = इष्टि-विशेषः । j) विप. (दीक्षणीयेष्टि-) । k) प्यम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपश्री.) ।

l) तु. पागम. । m) = (मित्रावरुणदेवत्य-) नक्षत्रद्वय- । n) पाभे. वैप १, ८२८ m द्र. । o) = ऋषि-विशेषः ।

p) = वसिष्ठ-ऋषि- । q) णाय इति जीसं. प्रम्. ।

-ङ् गत्य् काश्रौ २, ३; नाश्रौ २, ३, २, ९; वौश्रौ १५, ५ : ६; हिश्रौ ८, १, ५८;  
-णाः शाश्रौ १६, ९, ३०;  
वौश्रौ; -णात् काश्रौ २०, ८, ३०; -णानि वृद्धे ५, ८१; -णाय काश्रौ ५, १५, ८; १२, १०, ९; काश्रौ; -णे काश्रौ ८, ७, ७; काश्रौ २, ११, २३; नाश्रौ २, ४, १, ४; हिश्रौ १०, ४, २४; -णेत काश्रौ ७, ५, १६; काश्रौ; -णौ चावृश्रौ ४, ८३; १९; ८४; ५; अत्र ९, १०.

मैत्रावरुणी- ङी  
काश्रौ १, ७, ७ङ्; ६, १४, ७xx;  
शाश्रौ; काश्रौ १५, ४, ४०<sup>a</sup>; १८, ६, २५<sup>b</sup>; ऋअ २, १, १५; ४३xx;  
-णीन् काश्रौ १२, ७, १२;  
आपश्रौ; -ण्यः शाश्रौ १२, २, १६; गो २, १०ङ्; वृद्धे ६, ६५; १२४; -ण्या शाश्रौ ९, २८, १८; १४, ४०, २३; आपश्रौ;  
-ण्याः आपश्रौ ११, ५, १२;  
चाअ २ : १३; -ण्यान् हिश्रौ १०, ५, ४७; -ण्यै वौश्रौ २१, २४ : ७; २६ : ५; ७; माश्रौ.

मैत्रावरुण्या (शां-  
आ) मिज्ञा- आयान् वौश्रौ.  
२१, १ : ११.

मैत्रावरुण-चमस- -सन्  
काश्रौ ९, ३, ९; १८; आपश्रौ;  
-सात् आपश्रौ १२, ६, २; वैश्रौ;  
-मे काश्रौ ९, ३, १०; आपश्रौ;  
-सेत् काश्रौ ९, ३, ५; आपश्रौ.

मैत्रावरुणचमस-  
मुख्य<sup>c</sup>- ख्यः आपश्रौ १४, ३,

१०; -ख्यात् आपश्रौ १२, २८,  
१३; काश्रौ; हिश्रौ ८, ८, ४५<sup>c</sup>.

मैत्रावरुणचमसी-

(घ>)या- याः आपश्रौ १२,  
१६, ११; वौश्रौ; -यानान्  
नाश्रौ २, ३, २, २१; -यासु नाश्रौ  
२, ३, २, २१; २५.

मैत्रावरुणचमसाध्वर्यु-

र्युः हिश्रौ ८, १, ५९.

मैत्रावरुण-बोदित- त्तः

नाश्रौ ५, २, ८, ४.

मैत्रावरुण-दण्ड- -ण्डन्

आपश्रौ ७, ८, ३; वौश्रौ; -ण्डे  
वौश्रौ ३, ३१ : ५; -ण्डेत् काश्रौ  
६, ३, १०; आपश्रौ.

मैत्रावरुण-देव(ता>)

त<sup>d</sup>- ते काश्रौ ३, ६, ४.

मैत्रावरुण-धिष्य-

-धिष्यन् वैयाश्रौ १८, १८;  
-धिष्यत्य काश्रौ १७, ४, ४०;  
वाश्रौ १, १, ६, ६.

मैत्रावरुण-पात्र- -त्रन्

वौश्रौ ७, २ : १०; ६ : ४०; १४ :  
३६; वैश्रौ १५, २ : ६; -त्रै  
वौश्रौ ७, १५ : ३.

मैत्रावरुण-प्रनृति- -न्यः

शाश्रौ ६, १३, २.

मैत्रावरुण-मरुवीच-

वैश्वदेव-पौष्ण- -णाः ऋअ २,  
१, २३.

मैत्रावरुण-पृष्ट<sup>e</sup>- -ष्टाः

आपश्रौ ७, २३, ३; २६, ५; माश्रौ  
७, १७, १३; वैश्रौ १०, १८ : २;  
हिश्रौ ४, ५, ३२.

मैत्रावरुण-सान्- -न

निच् २, ११ : २२; ६, ५ : ५;

८ : ४१; ७, २ : ६; ८, ६ : ७;  
४५; -ननी छृच् ३, २ : ८.

मैत्रावरुणा(ण-अ)श्रौ-

-आः आपश्रौ १४, २२, ४; नाश्रौ  
३, ८, ७; हिश्रौ १५, ५, ३७;  
-आत् काश्रौ २५, १३, ४०;  
वौश्रौ १४, २७ : १७; २३, ८;  
२५; वैश्रौ २१, ८ : ७.

मैत्रावरुणाज्ये निच् ६,

१३ : ३६.

मैत्रावरुणा(ण-आ)दि-

-दिन्यः वैयाश्रौ २५, १.

मैत्रावरुणा(ण-अ)य-

-याः वैश्रौ १५, २७ : १६.

मैत्रावरुणि<sup>f</sup>- -णिः ऋअ २,

८, ६७; वृद्धे ५, १६०.

मैत्रावरुणीच<sup>g</sup>- -चम् नाश्रौ

२, २, ४, ४.

मैत्रावरुणयोर्-नयन- -नम्

आश्रौ १२, ६, १०; वौश्रौ १३,  
२९, २२.

मैत्रावरुण-वच् आपश्रौ २४,

१०, ७; वौश्रौ ४६ : ६; हिश्रौ

२१, ३, १४; वैच ४, ६, ३.

मैत्रावरुण-स्तनीरि(त>)वा-

-वान् आपश्रौ ३, १, ७; वौश्रौ

१, १८ : ३३; नाश्रौ ३, १, १;

हिश्रौ २, ३, ८.

मैत्रावरुण-दक्षां (क्ष-अं) दानुवि-

जाठ-मगा(ग-अ)र्मन्- -ग्नाम्  
वृद्धे ४, ८२.

मैत्रावरुणा (ण-अ) र्यना (न-आ)

दित्य- -यानान् चाअ १,

१९२.

मैत्रावरुण-श्री-श्रुत्य वृद्धे २,

४९.

a) वृ. चीत्. 1 b) वत्. 1 c) ख्यौ इति पाठः ? चनि. शेषः (वृ. आपश्रौ.) । d) व्यर. 1

e) तस्यदर्माद्यन् छन् प्र. उक्तं. (वा ४, २, १३८) ।



√मित्रीय > मित्रीयत्- -यन्तः  
 ऋत्र २,१०,१०८.  
 मित्र्य- पा ४,३, ५४; पाग ६, २,  
 १३१; -य्यः काश्रौ १५,५,३०.  
 मित्र-कर्मन्- प्रस्. मित्र- द्र.  
 मित्रयु<sup>१</sup>- पाठ १,३७<sup>७</sup>; पा, पाग २,  
 ४,६३; पाग ४,१,१००<sup>०</sup>; १०४<sup>०</sup>;  
 १३६; -युवः वीश्रौ ७ : १;  
 ४; हिश्रौ २१, ३,७<sup>१</sup>; -युवाम्  
 आश्रौ १२,१०,१२.  
 मैत्रेय- पा ४,१,१०४; १३६; ६,४,  
 १७४; ७, ३, २; -यः वीश्रौ  
 २०, १ : ३४; वाधुश्रौ ३, ९४;  
 ४; -यस्य वीश्रौ २०, २४;  
 २६; -ये पावा ६, ४,१७४.  
 मैत्रेयी- -यी आश्रु ३,४,४;  
 कौश्रु २,५,३; शांश्रु ४, १०, ३;  
 अप १,३,१<sup>०</sup>; ४३,४,२७<sup>१</sup>.  
 मैत्रेयायण- पा ४,१,१००.  
 मैत्रे(यक>)यिका<sup>१</sup>- पा ७,३,२.  
 मित्र-चत् प्रस्. मित्र- द्र.  
 मित्रवर्ध- , 'वर्ध<sup>१</sup>- (>मैत्रवर्धक-  
 श्र्धक- पा.) पाग ४,२,१२७.  
 मित्रा, √मित्राय, मित्रायु- मित्र- द्र.  
 रमित्रायु<sup>१</sup>- -युवः आपश्रौ २४,६,५<sup>१</sup>.  
 मित्रा-चरण- प्रस्. मित्र- द्र.  
 मित्राहे वाश्रौ ३,२,६,३९.  
 मित्री-(>रमैत्र-पा.)पाग ५,२,६१.  
 मित्री√कृ मित्र- द्र.  
 मित्रेरु<sup>१</sup>- -रुन् शैशि ३१०<sup>१</sup>.

१मित्वा √मा(वधा.) द्र.  
 २मित्वा √मि(वधा.) द्र.  
 √मिथ्, मेथ्<sup>१</sup> > मिथ(त्>)ती-  
 -तीः भाशि ५६<sup>१</sup>.  
 मिथस्<sup>१</sup>- पाठना ४, २२४; पाग  
 १,१,३७; -थः आश्रौ ३, १३,  
 ५; शाश्रौ ३, ४, ३<sup>१</sup>; काश्रौ  
 १,२,३; २५,४, ३१; आपश्रौ;  
 भाश्रौ ९,५, ६<sup>१</sup>; कौस् ११९,  
 २<sup>१</sup>; पावा २,२,३५<sup>०</sup>.  
 मिथो-भेद्- -द्ः अप ६४, ८,  
 ६; ७०<sup>२</sup>, ७,१२; ७१,१०,५.  
 मिथो(थस्-अ)वृगृह्य- -ह्ययोः  
 शौच ४,४२.  
 मिथु<sup>१</sup>- पाग १, १, ३७; -<sup>१</sup>थु  
 आपश्रौ ३, १२, १<sup>०</sup>; भाश्रौ ३,  
 ११, १<sup>०</sup>; वाश्रौ १, ३, ७,२०<sup>०</sup>;  
 हिश्रौ २,६,४<sup>१</sup>; शुप्रा ३,१२९<sup>१</sup>;  
 तैप्रा ३, १३.  
 मिथुयु<sup>१</sup> भाग २,३२ : १९<sup>०</sup>;  
 आपध २,१३,११; हिघ २, ३,  
 ११; अप्रा ३,४,११.  
 मिथ्या<sup>१</sup> माश्रौ १,७,४, ११<sup>१</sup>;  
 आमिथ २, ४, ८:१७; २०; २३;  
 वाघ.  
 मिथ्या √कृ<sup>१</sup> पा १,४,७४  
 मिथ्या-चरत्- -रत् विघ  
 ५,१७५.  
 मिथ्या-दर्शन- -ना<sup>१</sup> या  
 १४,५.

मिथ्या(थ्या-अ) धीत्-  
 प्रायश्चित्त- -त्तम् आपध १,  
 २६, १०; हिघ १,७,२१.  
 मिथ्या-प्रयुक्त- -क्तः  
 पाशि ५२; नाशि १,१,५.  
 मिथ्या(थ्या-अ) भिद्यं-  
 सिन्- -सी शेष ४०३; ४०४;  
 ४१४.  
 मिथ्या-चचन- -ने गौघ  
 १३,२३.  
 मिथुन,ना<sup>१</sup>- पाठ ३, ५५; पाग  
 १,१,३७<sup>०</sup>; ५, १, १३०; -नम्  
 शाश्रौ १५, १७, १<sup>१</sup>; काश्रौ  
 १३,३,११; वीश्रौ; आमिथ २,  
 १, ३ : २३<sup>१</sup>; -नयोः कौस्  
 ५१, ११; -नस्य मिथौश्रौ ७,  
 ८ : ८×४; वाधुश्रौ ४, २८<sup>२</sup>;  
 १; -<sup>१</sup>ना आपमं १, ७,  
 ११; वीश्रु ३,११,४; या १२,  
 १०; -नाः आपश्रौ ५,६,१<sup>१</sup>;  
 वीश्रौ; या ३, ४; -नात् निस  
 ८,२ : ४३; -नान् वीश्रौ १७,  
 ४७ : १२; माश्रु २, १०, २;  
 -नानाम् कौश्रु ४, ४, १९; शांश्रु  
 ४, १९,२; या ३, ४<sup>१</sup>; -नानि  
 वाधुश्रौ ४,२९ : ३; द्राश्रौ ५,  
 ३,१८; लाश्रौ २,७,१७; मिथौस्  
 ११४,२; १२८,२; -<sup>१</sup>नाम्याम्  
 आपश्रौ १०, २५, १५; भाश्रौ;  
 -ने आश्रौ ३, २, १२; -<sup>१</sup>नेन

a) व्यप. । b) <मित्र- + √या । c) तु. पागम. । d) सपा. मित्रयुव:<>मित्रायुवः  
 इति पाभे. । e) विप. ( [मित्रयु-ऋषिका-] अनुराधा- [नक्षत्र-]) । f) तद्भावार्थे बुल प्र. ( पा ५, १,१३४ ) ।  
 g) मित्र- (तु. पागम.), श्वल- इति पाका. । h) = मित्रयु- । i) वैप १ द्र. । j) √मिद्, मेद् टि. द्र. ।  
 k) या ४,२ परामृष्टः द्र. । l) प्यः सं इति सूची ? । m) मिथौ इति पाठः ? यनि. शोधः । n) पाभे.  
 वैप २, ३६. शमिथु-> -थु तैत्रा ३, ७, ११, ५ टि. द्र. । o) तु. पाशि. । p) पाभे. वैप १, २३१८ k द्र. ।  
 p) पाभे. वैप १,२४९८ e द्र. । r) पा १,३,७१ परामृष्टः द्र. । s) तु१ रूपम् (तु. BNM.) । t) पाभे.  
 वैप २,३६. मिथुनीभवन्ति ऐत्रा-७,१३ टि. द्र. । u) सपा. आपमं २,१४,१ विधुरम् इति, हिघ २,३,७ विधुरम्  
 इति च पाभे. ।

आपश्रौ १३, २१, ३; वीश्रौ;  
-नेभ्यः आश्रौ ३, २, १५; -नेपु  
शाश्रौ ६, १, १३; -नैः काश्रौ  
३, ३, ३; वाधूश्रौ ४, १५ : १०;  
९७<sup>२</sup> : ८; ११६ : ५; -नौ  
काश्रौ ४, ५, २२××; आपश्रौ;  
या ७, २९<sup>१</sup>कृ; १२, १०<sup>२</sup>.

मैथुन- पा ५, १, १३०; -नम्  
शाश्रौ ९, २८, १८; काश्रौ; वाध ६,  
२९××; शंघ १३××; आपध १,  
२, २६××; हिघ १, १, ५९××;  
-नस्य वीध २, १०, ४१; -नात्  
आप ३, ९, ६; शाप ४, ११, १;  
आपध; -नाय वृदे ४, १२; ७,  
४; -ने आपध १, ९, १२; २,  
१३, ३; विध.

मैथुन-क्षुरकृत्य-स्ताना-  
( न-अ ) वलेखन-दन्तधावन-  
पादधावन- नानि द्राप २, ५,  
१२.

मैथुन-मांसभोजन- नम्  
काश्रौ २५, ४, २७.

मैथुन-वर्जन- नम्  
आपध २, १, ९; वैध ३, ६, ५;  
हिघ १, ९, ९.

मैथुन-वर्जम् आमिगृ २,  
४, ११ : ३.

मैथुन-न्यपेत, ता-  
-तायाम् वाध १३, २५;  
-तेन वाध १३, २६.

मैथुन-शक्ता- -क्षायाम्  
गौध २, २२.

मैथुन-संयोग- -गे गौध

१३, १९.

मैथुना(न-आ)चरण-  
-णम् विध ३८, ४.

मैथुना(न-अ)र्थ- -र्थम्  
वृदे ६, १५४.

मैथुने( न-इ )च्छा-  
-च्छायाम् पावा ७, १, ५१.

मिथुन-काम- -मः जैगृ १, २१ :  
२.

मिथुन-चारिन्- -रिभ्याम् वाश्रौ  
३, २, ५, ३६.

मिथुन-त्व- -त्वाय वीश्रौ १०,  
५ : १५.

मिथुना(न-आख्या)>ख्य-  
-ख्ये ऋत ३, ८, १.

मिथुना(न-अ)र्थ- -र्थम् ऋअ २,  
१०, १०.

मिथुनी✓भू >मिथुनी-भूय  
आपध १, ३२, २; हिघ १, ८, ४४.

मिथुनि<sup>a</sup>- -नी वाधूश्रौ ३, ७० : ७;  
४, ३१ : ७; जैश्रौ ७ : ९<sup>१</sup>; वीगृ  
३, ५, ७<sup>२</sup>; गौध ९, २६; ऋतैप्रा  
४, ५३<sup>b</sup>; १०, १८<sup>b</sup>.

मिथुस<sup>a</sup>- -थुः आपश्रौ २, २०,  
६; भाश्रौ २, १९, १; हिश्रौ २, ५,  
४७.

मिथुश-चरत्- -रन्तम् भाशि  
५६<sup>१</sup>०.

मिथू- >मिथू-कृत्<sup>a</sup>- -कृतम्  
शाश्रौ १८, ११, २<sup>१</sup>.

मिथू-दृश<sup>a</sup>- -दृशा ऋप्रा ८,  
३१; ९, ८.

मिथो<sup>d</sup> पाग १, १, ३७.

मेथत्- -थन्तौ या ७, २९.

मेथन- -ने वैताश्रौ ३८, १०.

मैथि<sup>१</sup>, तिथि<sup>१</sup>- -तः<sup>१</sup> आपश्रौ ९,  
३, १; भाश्रौ ९, ४, २; हिश्रौ १५,  
१, ४९.

मिथत्-, मिथस्- ✓मिथ् द.

मिथिन्- पाजना ४, ११.

मिथि(ल>)ला- पाठ १, ५७.

मिथु<sup>१</sup>-; मिथुन- प्रमृ., मिथ्या  
✓मिथ् द.

✓मिद्, मेद्<sup>१</sup> पाषा. भ्वा. उभ. मेधाहि-  
सनयोः, भ्वा. आत्म., दिवा. पर.  
स्नेहने, मेघति या ६, १२;  
मेघन्तु या ८, ३<sup>१</sup>.

मेदयन्ति वाधूश्रौ ४, ५२ : ५;  
मेदयेयुः वाधूश्रौ ४, ५२ : ५.

मेद<sup>१</sup>- -दम् विध ७९, ७.

मेदा(द-आ)हुति-भक्ष<sup>१</sup>-  
-क्षेभ्यः माश्रौ ४, १, १६.

मेदस्<sup>a</sup>- -दः काश्रौ ६, ६, २४<sup>१</sup>म्;  
२०, ७, ७; आपश्रौ; वीश्रौ ४, ७ :  
१२<sup>१</sup>म्; ११, ५ : १३<sup>१</sup>म्; वैश्रौ  
१०, १६ : १०<sup>१</sup>म्; या ४, ३<sup>१</sup>कृ;

१४, ६; -मिदसः आश्रौ ३, ४, ३;  
काश्रौ ६, ६, २२<sup>१</sup>म्; आपश्रौ ७,  
२१, १<sup>१</sup>म्××; काश्रौसं; वीश्रौ ४,  
७ : ११<sup>१</sup>म्; भाश्रौ ७, १६, १<sup>१</sup>म्; ७<sup>१</sup>म्;

माश्रौ १, ८, ४, ३३<sup>१</sup>म्; वाश्रौ १, ६,  
६, १०<sup>१</sup>म्; वैश्रौ १०, १६ : ९<sup>१</sup>म्; हिश्रौ  
४, ४, ३७<sup>१</sup>म्; ऽया ६, १६; १४, ६;  
-दसा आपश्रौ ७, २४, ९; २६, ३;  
भाश्रौ; -मिदसाम् आपश्रौ २०,  
१९, ३<sup>१</sup>; ५<sup>१</sup>; -दांसि वीश्रौ १८,

१९, ३<sup>१</sup>; ५<sup>१</sup>; -दांसि वीश्रौ १८,

a) वैप १ द. । b) शोधार्थं वैप १, २४९९ e, d यथाक्रमं द. । c) पाभे. वैप १, २४९८ e द. ।

d) = मिथस्- (तु. MW.) । e) ष्ते इति C. शोध-प्रस्तावः । f) भाश्रौ. पाठः । g) वैप २, ३३<sup>१</sup> द. ।

h) पाभे. वैप १, १०८७ C द. । i) ✓मिथ्, मेथ् इति च ✓मिध्, मेध् इति च पाठान्तरम् (तु. भाएडा. प्रमृ.) ।

j) या ४, ३; १०, २१ पा १, २, १९; ३, ९१; ३, १, ५५; ७, ३, ८२ परानृष्टः द. । k) = मेदस्- । l) पस. >दस. ।

m) सपा.मेदः <>मेदसः इति पाभे. ।

४० : २१; २४.  
 मेदः कुल्या- ल्यामिः कप्र २,  
 ४, १४.  
 मेदस्-तरस<sup>a</sup>- -सः वाधूश्रौ ३,  
 ९५ : २.  
 मेदस्-त्सः(ः) या ४, ३; ६, १६१;  
 मेदस्तःऽमेदस्तः माश्रौ ५, २,  
 ९, ५.  
 मेदस्-पिण्ड- पाग ८, ३, ४८.  
 मेदस्-वत्- -वत् वौश्रौ ४, ९ :  
 ३५; हिश्रौ ४, ५, ३१.  
 मेदस्वती- -ती भाग २,  
 १६ : ५१<sup>b</sup>; -तीम् भाश्रौ ७,  
 २१, १; हिग २, १५, २१<sup>b</sup>.  
 मेदस्-विन्- -विनम् वैश्रौ १०,  
 २० : ८.  
 मेदस्विनी- -नीम् वैश्रौ १०,  
 २० : ६.  
 मेदो-मजा(जा-अ)स्थि-वृष्टि-  
 -ष्टयः अप ६४, ५, ८.  
 मेदो-मधु-श्यामाके(क-इ)पीक-  
 -तूल- -लानि कौस् ११, ४.  
 मेदो-मि(श्र >)श्रा- -श्राम्  
 हिश्रौ ४, ५, ३०<sup>c</sup>.  
 मेदो-रूप<sup>d</sup>- -पम् वौश्रौ २८, ७ :  
 ८.  
 मेदिन्<sup>d</sup>- -दी अप ४८, ११६१;  
 -दिनम् पावा ६, १, ६७; ८, २,  
 ६.  
 मेदिनी<sup>d</sup>- -नी वैग ३, १६ : ७;  
 ४, ११ : ९१; -नीम् अप ६१,  
 १, १७; ६८, ३, १२.  
 मेदुर- पा ३, २, १६१.

√मिघ्, मेघ् √मिद् टि. द्र.  
 √मिन्द् (वधा.) पाधा. चुरा. पर.  
 स्नेहने > मिन्दा<sup>e</sup>- -न्दया<sup>f</sup>  
 आपश्रौ १३, १७, ८; हिश्रौ ९,  
 ४, ५६; १०, ५, १६; -<sup>f</sup>न्दा  
 आपश्रौ ९, १२, ११; १३, १७,  
 ८; वौश्रौ.  
 मिन्दा(न्दा<sup>f</sup>-आ)हुति- -ती  
 वौश्रौ २१, २४ : ९<sup>g</sup>x x; वैश्रौ;  
 -त्योः वौश्रौ २१, २४ : ८.  
 मिन्दाहुत्या(ति-आ)श्रावि-  
 तादि- -दीन् वैग ६, १० : ३;  
 १३ : ४; २० : ३; ४; ७, ८ :  
 १०.  
 √मिन्व् (वधा.) पाधा. भ्वा. पर.  
 सेचने, मिन्वति भाश्रौ ५, २,  
 १९६.  
 मिमत<sup>h</sup>- पाग ४, १, ९९<sup>i</sup>.  
 मैमत- पा ४, १, १५०.  
 मैमतायन- पा ४, १, ९९.  
 मैमतायनि- पा ४, १, १५०.  
 मिमान- √मा (वधा.) द्र.  
 √मियन् (= √म्यक्ष्), मियक्षति  
 निघ २, १४१<sup>j</sup>.  
 मिमियेघ<sup>k</sup>- -घः आश्रौ ६, ११, ११.  
 मिमियेघ<sup>d</sup>- -०ध्य वौश्रौ ९, ७ :  
 २१.  
 मिरिका<sup>l</sup>- > का-वन- पावा ८, ४, ६.  
 मिमिर्<sup>m</sup>- -रः आपश्रौ २२, ७, ७;  
 वौश्रौ १८, १ : ४; ५९<sup>n</sup>; हिश्रौ  
 १७, ३, ७.  
 √मिल् पाधा. तुदा. पर. श्लेषणे,  
 उभ. संगमे, मेलयति हिश्रौ ९,

३, १०.  
 मिलिक- (> मैलिक्- पा.) पाग  
 ५, १, १२८.  
 ?मिलिजमिलि अप ३६, १, १२.  
 √मिश् (वधा.) पाधा. भ्वा. पर.  
 शब्दे रोपकृते च > मिश्र, श्रा<sup>o</sup>-  
 पाठवृ २, १३; -श्रः वौश्रौ  
 २०, ११ : १२; सु १४, ३;  
 माशि ८, ६; -श्रम् आपश्रौ १३,  
 २४, १६१; वौश्रौ; -श्राः वौश्रौ  
 १५, ८-९ : ८; वाश्रौ ३, ४, १, ३७;  
 ३९; अप १, ४८, ६; अशां १५,  
 ५; -श्राणि अप ४४, ३, ३;  
 -श्रान् अप ४३, ६, १; ऋप्रा १,  
 ५३; -श्रासु विघ २६, २; -श्रे  
 पा ६, २, १२८; -श्रैः काश्रौ  
 १९, २, २५; अप ७०<sup>r</sup>, ७, १७.  
 मिश्र-चोर- -रः विघ ४५, १०<sup>s</sup>.  
 मिश्र-देवता-त्व- -त्वात् मीस्.  
 ५, ४, २१.  
 मिश्र-धान्य<sup>t</sup>- -न्यानि कौस् ८,  
 २०; -न्यैः अप १, ४४, ६.  
 मैश्रधान्य- -न्यम् कौस्  
 १९, ५; २२, १; २४, ८; ४६,  
 १०; -न्यस्य कौस् १३३, १;  
 -न्यानि अप १७, २, ५.  
 मिश्र-निघन- -नम् निस् ४, १ :  
 २३.  
 मिश्र-मिश्र<sup>u</sup>- -श्रान् वाश्रौ ३,  
 ४, १, ४८.  
 मिश्र-वत्- -वन्तः निस् ७, ७ : २.  
 मिश्र-वर्ण<sup>v</sup>- -र्णः आमिग २, ४,  
 १२ : ७.

a) मलो. कस. । b) परस्परं पाभे. । c) अश्म इति पाठः ? यनि. शेषः । d) वैप १ द्र. । e) घा.  
 स्वल्पे वृत्तिः । वैप १ द्र. । विशेषः टि. द्र. । f) = ऋग्-विशेष- । तद्वति वृत्तिः । g) घा. प्रक्षेपणे वृत्तिः ।  
 h) व्यप. । i) रमित- इति [पक्ष] पागम. । j) लघुशास्त्रीयः पाठः । k) वैप १, २५०० k, m द्र. ।  
 l) अर्थः व्यु. च ? । = ओषधि-विशेष- इति पासितः । m) घा. संमिश्रणे वृत्तिः । n) 'चौ' इति जीतं. ।  
 o) नाप. ( मिश्रित-धान्य- ) । p) विप. [श्रीद्रमण-होम- ( तु. म [मा २२, २०] )] । सप्त. । q) वच. ।

√मिश्र-वासत्<sup>१</sup>-त्सः आपर्मां  
२, १३, ११<sup>०</sup>; भावृ १, २३, ९<sup>०</sup>;  
वैवृ ३, १५ : ५<sup>०</sup>; १७ : ६.  
मिश्र-त्वम्-स्वभाव<sup>०</sup>-वैषु अप  
६८, १, ४८.

√मिश्रि पा ३, १, २१; मिश्र-  
चति काश्रौ १०, ४, ६.

मिश्रण- -णम् काश्रौ ५,  
१०, ९.

मिश्रि(त>)ता- ताः श्रां  
५ : २.

मिश्री√कृ > मिश्री-करण-  
-णम् पा, पावा २, १, ३५.

मिश्री√नू > मिश्री-भाव-  
-वः अप ७०<sup>३</sup>, ११, ४.

१मिश्रीभाव-कर्मन्-  
-र्मणः या २, १६.

२मिश्रीभाव-कर्मन्<sup>०</sup>-  
-र्मां या ५, १५.

मिश्री-मूत- -ताः अप ५२,  
६, १.

√मिश्र<sup>०</sup> पावा. जुरा. उम. संपर्के.  
मिश्रक- (>का-बल>]ग-या.)  
पाग ६३, ११६; ८, ४, ४.

मिश्र-चोर- प्रमृ. √मिश्र द्र.  
मिश्रोदन्<sup>०</sup>- -ताः वौधौप्र २२ : २.

√मिप्<sup>०</sup> पावा. भ्वा. पर. सेवने, तुदा.  
पर. स्पर्धायाम् > √मिपत्-

-पत् वौधौ १७, १९ : १०; हिपि  
१८ : १३; -पतः भावृ ३, ९ :

४; श्रब ४, २९; -पद्मयः हिपि

१८ : १३; -पन्तम् आश्रौ ४,  
७, ४; या ११, ४२<sup>०</sup>.

मिष्ट<sup>०</sup>- -ष्टाव माशि १५, १०.  
मिष्टै(ष्ट-ए)क-भोजिन्- -जी  
शंघ ३७७ : १५.

मिष्टै(ष्ट-ए)का(क-आ)शिन्-  
-शौ शंघ ३७७ : ५.

१मेघ- पाग ३, १, १३४.  
मेघा(घ-आ)घ(दि-अ)र्थ- -र्थः  
पावा ३, १, १३५.

१मिषे<sup>०</sup> आपश्रौ २४, १४, १३.  
√मिस्, मिल्यति<sup>१</sup> निघ २, १४.  
√मिस्<sup>०</sup>

√मिह् √मिघ् द्र.  
मिहिर- पाठ १, ५१.

√मी √मि(वधा.) द्र.  
√मी (=√सा [माने]), ऋमिमाय  
वौधौ १२, १० : २७; आम्रिये  
२, ५, १ : २४; अश्र ९, १०; या  
११, ४०.

√मी (=√सा[शब्दे]), मिमेति अप  
४८, ४; मीमयव या २, ६६;  
अमीमेत् आश्रौ ४, ७, ४;  
शाश्रौ ५, १०, ६; या ११, ४२.

मीढ-, मीढुपी- प्रमृ. √मिष् द्र.  
१मीतन् वावृश्रौ २, १६ : ९.

मीन<sup>१</sup>- पाठ ३, ३<sup>६</sup>; पाग ४, २, ८०<sup>१</sup>;  
-नान् द्रै ६, ८८; -नानाम्  
नाशि १, ६, १६.  
मैनिक- पावा ४, ४, ३५<sup>०</sup>.

मीन- पा ४, २, ८०.

√मीमांस<sup>०</sup>, मीमांसते अप ३३, १,  
९; मीमांसन्ते वाधृश्रौ ४, ९० ::  
२९; वौघ १, ४, १०; नाघ २२,  
२; गौघ १२, ४; तैप्रा १६, ९<sup>०</sup>;  
मीमांसते वाधृश्रौ ४, २८<sup>०</sup> : ५;  
जैश्रौ १ : ५; ६; मीमांसेरन्  
आपश्रौ २३, १, १५; वाश्रौ ३,  
३, ४, १८; हिश्रौ १८, १, २०.

मीमांसमान- -न्त्य आपघ २, ६,  
१९; हिघ २, १०, २०.

मीमांसा- पाग ४, २, ६१<sup>०</sup>; -सा  
शाश्रौ १८, २४, ३४; आपश्रौ  
१५, १८, १२; १२, १६, ९;  
वौधौ २, १२ : ११; १४xx;

वाधृश्रौ; चव्यू २ : २८<sup>०</sup>.  
मीमांसक- पा ४, २, ६१;  
-कानाम् तैप्रा ५, ४१<sup>०</sup>.

मीमांसित- -न्त्य आपघ २, ६,  
१९; हिघ २, १०, २०.

मीमांसित्वा वौघ १, ५, ६३.  
मीमांस्य- -न्त्यम् गोगृ १, २, ९;  
वाघ ३, ४४.

मीमांस्यमान- -ताः आश्रौ ११,  
२, ६.

मीयमान- √मा(वधा.) द्र.  
मीर- पाठ २, २५.

√मील्<sup>०</sup> पावा. भ्वा. पर. निमेषणे.  
√मीव् पावा. भ्वा. पर. त्यौत्ये.

मीव- पाठ १, १५४.  
मीवर- पाठ ३, १.

मुकय<sup>०</sup>- पाठभो २, ३, ७; पाग ४, १, ४१.

a) वस. । b) सपा. हिण् २, ३, ७ विश्ववासः इति, आम्रिय २, १, ३ : १७ विश्वासाः इति च पाठे. ।

c) वस. > वस. । d) √मिस् इत्यपि BPG. । e) = ऋपि-विशेष- । संल्लुः टि. भूयान् पाठे. । f) या ३,  
१६ परानृष्टः द्र. । g) नाप. । < √'नृष्ट' 'माधुर्ये' (तु. पंजा. मर्तार [मधु-]; नभा. मखाना [मर्करित-भान्य-];  
पार., नभा. मिल्) । h) पाठः? इप्- > इपे इति शोधः (तु. C., अत्रैव ऊर्ज- > ऊर्जे च) ।  
i) वैतु. दे. < √मस् इति । j) = मत्त्य- । व्यु. ? । k) < √मी [हिंसायाम्] । l) अर्घ्यः ? ।  
m) तु. पाणि. । n) वैप १ द्र. । o) = मीमांसा-शास्त्र- । p) पा ७, ४, ३ परानृष्टः द्र. ।  
q) = नृगजाति-विशेष-

मुकयी- पा ४,१,४१; पावा ४, १,६३.  
 मुकुट<sup>a</sup>- पाठभो २, २, १०६<sup>b</sup>; -टेन विध १,४२.  
 मुकुर<sup>c</sup>- पाठ १, ४०; पाग ५, २, ३६<sup>d</sup>; पावाग ८, २, १८<sup>e</sup>.  
 मुकुरित- पा ५, २, ३६.  
 मुकुल<sup>f</sup>- पाग २, ४, ३१; ५, २, ३६; १३६<sup>g</sup>; पावाग ८, २, १८<sup>h</sup>.  
 मुकुलित- पा ५, २, ३६.  
 मुकुलिन्- पा ५, २, १३६.  
 मुकुलो(ल-उ)प(मा>)म<sup>i</sup>- मम् वैश्रौ ११, ८ : २.  
 मुक्- ✓मुच् द्र.  
 मुक्ता- > मौक्तिक<sup>j</sup>- कम् अप २, १, ५; -कानि अप ६७, ५, १. मौक्तिक-लाङ्गूल-भूषित- -तम् विध ८७, १.  
 मुक्ता-मणि-सुवर्ण- -णैत अप १, ४३, ३.  
 मुक्तामणिसुवाशुङ्ग- -ङ्गाः अप ६८, १, २१.  
 मुक्ता-लाङ्गू( ल> )ला<sup>k</sup>- -लाम् विध ९२, ८.  
 मुक्ता-स्फटिक-रजत-वैदूर्या( र्थ-अ) -ञ्जन-भ्रमर-सर्प-संनिकाश- -शेषु अप ६५, १, ५.  
 मुक्ति-, मुक्त्वा ✓मुच् द्र.  
 मुक्षति अप ४८, २८<sup>l</sup>.  
 मुक्षीयमाण- ✓मुच् द्र.  
 मुक्षीजा<sup>m</sup>- -जया, -जा या ५, १९६.  
 मुलु- पाठभो २, १, १०८.  
 मुख<sup>n</sup>- पाठ ५, २०; पाग २, ४, ३१; ४, ३, ५४; ५, २, २४; ३, १०३;

-खम् आश्रौ १, ३, २८४; शांश्रौ; पा ६, २, १६७;  
 -खयोः वौश्रौ १५, २ : २१; वाधूश्रौ ३, ७० : ४; -खस्य शांश्रौ १, १२, ५<sup>o</sup>; आपश्रौ; -खा अप ४६, ३, ४<sup>p</sup>; -खात् काश्रौ १९, ४, १४; आपश्रौ १७, १९, १०; वौश्रौ १०, ५७ : २२; ११, ७ : ११; माश्रौ ५, २, ११, २४; ६, २, ५, ३१; वैश्रौ १९, ६ : १२५; हिश्रौ १२, ६, १३; कप्र १, ९, १५; वैध ३, ११, ३; वृदे ६, १०२; या ७, १२<sup>q</sup>; -खानि काश्रौ १०, ८, ९; आपश्रौ; -खाय आपश्रौ ६, २८, ११; वैश्रौ २, ११ : ९<sup>r</sup>; -खे आश्रौ ३, ११, ३; काश्रौ; वाध ३, ४१<sup>s</sup>; -खेन आश्रौ १, १३, १<sup>t</sup>; आपश्रौ; या ७, ३<sup>u</sup>; -खेषु आपश्रौ १२, १२, ११<sup>v</sup>; कप्र ३, २, ५.  
 मुख-कमल-, मुख-चन्द्र- पाग २, १, ५६<sup>w</sup>.  
 मुख-जाह- पा ५, २, २४.  
 मुख-तसः(ः) शांश्रौ १६, १, १२; आपश्रौ.  
 मुखतीय- पागवा ४, २, १३८; पावा ४, ३, ६०.  
 मुख-दधन- -धनम् वाधूश्रौ ३, ७६ : ५; -धने वौश्रौ ९, १३ : १६; - १०, ४८ : ३; १९, ४ : २६; वैश्रौ १९, ६ : ३६; ४५.  
 मुख-देश- -शम् आपश्रौ २४, १४, १३.  
 मुख-दोष- -पाच् माशि २, १३.

मुख-नासि(का>)क- -कम् शौच १, २७; -के अप ४७, १, १२.  
 मुख-नासिका<sup>x</sup>- > मुखनासिका-करण<sup>y</sup>- -णः शुप्रा १, ७५.  
 मुखनासिका-वचन- -नः पा १, १, ८.  
 मुखनासिक्य- -क्याः तैप्रा २, ५०.  
 मुख-नासिका- -काभ्याम् ऋप्रा १३, २०.  
 मुख-नासिका( का-अ)क्षि-श्रोत्र- -त्रम् या १४, ६.  
 मुख-पद्म- पाग २, १, ५६.  
 मुख-पुच्छ-पाद-शुङ्ग-शुक्ल<sup>z</sup>- -क्लम् विध ८६, ७.  
 मुख-पुण्डरीक- पाग २, १, ५६<sup>aa</sup>.  
 मुख-ब्राह्म(हु-ऊ)रु-पाद- -देषु वैध १, १, २.  
 मुख-मात्र- -त्रे काश्रौ ४, १४, १२; १८, १, ४.  
 मुखमात्री- -त्रीम् काश्रौ १६, ८, २३.  
 मुख-र- पावा ५, २, १०७.  
 मुख-वत् वैश्रौ ११, ७ : १३.  
 मुख-व(त>)ती- -त्यः हिश्रौ १, ४, ३२.  
 मुख-वर्ण-विनाश- -शे विध ८, १८.  
 मुख-वल्मीक<sup>ab</sup>- -कः काध २७८ : ९.  
 मुख-वात- -तेन वौश्र ४, २, ६; हिश्र १, १६, ४.  
 मुख-वाद- -दः आपश्रौ १६, २१, १०; वैश्रौ १८, १६ : ४३; हिश्रौ

a) =किरीट-। b) <✓मुच्। c) =दर्पण-। d) पृ ८८४ II द्र.। e) तु. पागम.। f) =कुड्मल-। g) वस.। h) स्वाथे ठक् प्र.। i) धा. सादेरे वृत्तिः। j) वैप १ द्र.। k) सूखे इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. कश्चन मूलो., सप्र. मनुः [५, १४०])। l) मलो. कस.। m) =अनुनासिक-। n) दस. >सस.। o) उपमार्थे वस. इति ?।

११, ७, १०; बौधु ६: २०.  
 मुख-वाच<sup>३</sup> - चम् अप ३६, २५,  
 २.  
 मुख-वास<sup>४</sup> - सम् वैगृ ४, ४: १८;  
 १२: १०; ५, १३: १८.  
 मुखवास-दान- नम् वैगृ २,  
 १६: १०.  
 मुखवासा(स-आ)दि-दक्षिणा<sup>५</sup>-  
 -णाम् वैगृ ५, १५: १४.  
 मुख-विकृति- -ति: अप ४७, २, ७.  
 मुख-विगन्ध<sup>६</sup> - च: शंष ३७७:  
 १६.  
 मुख-विमार्जन- नम् शाश्रौ ४,  
 २१, २१; ८, १, ८.  
 मुख-विस्तीर्ण- -र्ण: अप २३, १, ४.  
 मुख-शब्द- च्दम् शंष ९५; आपध  
 २, १९, ६; हिष २, १३, ७८;  
 च्देन शंष २२६.  
 मुख-पट्ट-नाण्ड<sup>७</sup> - ण्ड: काध  
 २७८: ९.  
 मुख-संमित, ता- -तम् काश्रौ ७,  
 ४, १; वैश्रौ ६, १२: ५; १२,  
 ९: १; -ताम् शाश्रौ १, १०,  
 ७; वैश्रौ ३, २८: २५; वैताश्रौ  
 ७, ८; अप ४५, १, १६.  
 \*मुख-स्वर-> श्रो(र-उ)पचार-  
 -रा: पावा १, १, ४१.  
 मुख-हृदय- -ये आश्रौ ५, ६, २६.  
 मुखा(स-आ)दान<sup>८</sup> - ना: हिष  
 १, ६, ३४<sup>१</sup>.  
 मुखा(स-आ)दि- -दीनि कौसू ४४,  
 १८.  
 मुखा(स-अ)न्त- -न्तात् गौपि १, २,  
 ३३.

मुखेना(न-आ)दायिन्<sup>९</sup> - -यिन: वौघ  
 ३, ३, ९; १२.  
 \*मुखोच्चक: भाशि ६१.  
 मुखो(ख-उ)पस्पर्शन- -नम् काश्रौ  
 ६, ९, ११.  
 मुख्य, ख्या<sup>१०</sup> - पा ४, ३, ५४; ५, ३,  
 १०३; पाग ६, २, १३१; -ख्य:  
 शाश्रौ १३, १४, ४××; आपश्रौ;  
 -ख्यम् आश्रौ ३, १३, १८;  
 आपश्रौ; -ख्यम् ऽ-ख्यम् आपश्रौ  
 १४, ३, ११; वौश्रौ; -ख्यया  
 वृदे ३, ३७; -ख्यस्य आपश्रौ  
 १६, २७, १९; वौश्रौ; मौसू ११,  
 ३, ३५<sup>१</sup>; -ख्या आमिगृ ३, ६,  
 ३: १३; वौपि १, ११: १०;  
 ऋप्रा ६, ३३; -ख्या: आपश्रौ  
 १४, ४, १३; वौश्रौ; -ख्यात्  
 वौश्रौ ९, ४: ८; २०, ८: ११;  
 मौसू ३, ४, ४७; -ख्यात् ऽ-ख्यात्  
 भाश्रौ ८, १८, ४; -ख्यान्  
 आश्रौ ५, ६, १७; नाश्रौ;  
 -ख्यानाम् आश्रौ ४, १, १७;  
 वौश्रौ २३, १३: २४; भाश्रौ  
 ७, १९, १; मौसू ११, २, १;  
 -ख्याम् वौश्रौ १०, ६: ३××  
 वैश्रौ; -ख्याया: वौश्रौ १०, ७:  
 ९; वैश्रौ १८, २: ३; -ख्यायाम्  
 वैश्रौ १८, १८: ११; -ख्ये  
 आपश्रौ १२, २८, १६××;  
 काठश्रौ; ऋप्रा १४, २२; -ख्येन  
 वौश्रौ २१, २०: २७; २२:  
 १०; अश्र; -ख्येभ्य: आश्रौ ९,  
 ४, ३<sup>१</sup>; -ख्येषु नाश्रौ १, ६,  
 ४, ८; -ख्यौ ऋअ २, ४, १०.

मुख्य-काल<sup>११</sup> -त्व- -त्वम् मौसू  
 ४, ३, ३८; -त्वात् मौसू ५, १,  
 २३; ११, ३, १.  
 मुख्य-क्रम- -मेण मौसू ५, १,  
 १४.  
 मुख्य-चमत् -त्वात् आश्रौ ५,  
 ६, २०.  
 मुख्य-तन्त्र- -न्त्रेण मौसू १२,  
 १, ३.  
 मुख्य-तम, मा- -मा हिपि १४:  
 ४; -मौ वृदे २, ८.  
 मुख्य-त्व- -त्वम् हिश्रौ ३, ८,  
 ३२; -त्वात् हिश्रौ ३, ८, ३३;  
 मौसू ४, १, ३९; १२, ३, १४.  
 मुख्य-देवता( ता-अ)नमो-  
 ज्य<sup>१२</sup> -त्व- -त्वात् मौसू १०,  
 ७, ४६.  
 मुख्य-नामन् -म वा २, २२.  
 मुख्य-प्रथम<sup>१३</sup> - -मान् नाश्रौ ५,  
 २, १२, २३; २६.  
 मुख्य-प्रवाद<sup>१४</sup> - -व: हिश्रौ २२,  
 ३, २५<sup>१</sup>.  
 मुख्य-भेद- -दे मौसू ७, १, १.  
 मुख्य-रक्षण- -णम् मौसू ४,  
 ४, ३४.  
 मुख्य-विप्रतिषेध- -धात् मौसू  
 ३, ६, ८<sup>१</sup>.  
 मुख्य-शब्द-संस्तव- -वात्  
 मौसू ४, १, २४.  
 मुख्य-स्यान- -ने हिश्रौ ११,  
 ७, ६१.  
 मुख्या( ख्य-अ)धिगम- -मे  
 मौसू ६, ३, ३६.  
 मुख्या(ख्य-आ)नन्तर्य- -चम्.

a) पस. । b) सुगन्धि-द्रव्य- । उप. <√वत् [गन्वे] । c) उप. = २दक्षिणा- । d) वस. ।  
 e) वस. > कस. । f) = वानप्रस्थ-विशेष- । g) विप., नाप. । h) मुख्यधा इति जीसं. प्रसू. ।  
 i) तु. ज्ञान. । मं इति BI. ? । j) कस. > वस. । k) = प्रानर्जी- । वस. । l) सप्र. आपश्रौ १९, २०, ७-  
 ग्राम्यवादी इति पभे. । m) मुखप्र इति जीसं. ।

मीस् ५, २, १८; -यार्त् मीस्  
१२, २, २७.  
मुख्या(ख्य-अ)र्थ- र्थः मीस्  
३, ८, ३५.  
मुख्या(ख्य-अ)वदान-परिमाण-  
-णात् मीस् १०, २, ६.  
मुख्या(ख्य-आ)सन- नेभ्यः  
काश्री २४, ४, ४७.

मुग्ध- ✓मुह् द्र.

✓मुड्स्व<sup>०</sup> पाधा. भ्वा. पर. गतो.

✓मुच, ङच् (वधा.)<sup>०</sup> पाधा. तुदा. उभ.

मोक्षणे; चुरा. उभ. प्रमोचन-  
मोदनयोः, ङमोग्धि<sup>०</sup> आमिग्य  
२, ४, ४ : १६; वौध ३, ७, ११.  
ङमुमुग्धि आपश्री ६, २२, १;  
अपं २ : ५८; या ४, ३; ङमुमु-  
क्तम्<sup>०</sup> अत्र ५, ६; अपं ३ : ९;  
अमुमुक्तम् ऋप्रा २, ४० ङ.  
मुच्यन्ति अप ७०<sup>३</sup>, ११, २७.  
मुच्यति भाश्री १०, २०, १५;  
वाश्री ३, १, १, ३३; कौस् ३९,  
१५; अप १, ५०, ७; ४८,  
३६ ङ<sup>०</sup>; मुच्यन्ति अप ७०<sup>२</sup>,  
७, ३; ७०<sup>३</sup>, ११, १३; मुच्यथः  
अप्राय ६, ९ ङ; ङमुच्यामि शांश्री  
१६, १३, ४; काश्री; ङमुच्यतु  
आश्री ३, ६, २४; १३, १५; काश्री;  
आपमं १, ४, ७; ङमुच्यताम्  
आपश्री ३, १२, १; वौश्री २७,  
६ : १२; वैश्री २०, ३० : ९;  
ङमुच्यन्तु काश्री २५, १, ११;  
आपश्री; मुच्यस्व या १४, ३२;  
ङमुच्य आश्री ३, ६, २४<sup>३</sup>; शांश्री;

वौश्री ३, ४ : ८<sup>६</sup>; ९<sup>६</sup>; २४, ३० :  
१०<sup>६</sup>; १२<sup>६</sup>; भाश्री ६, ७, ६<sup>२</sup><sup>६</sup>;  
वाश्री १, ५, २, ४<sup>६</sup>; हिश्री  
३, ७, ५<sup>६</sup>; ६<sup>६</sup>; अप्राय १, २<sup>६</sup>;  
मुच्यत्मुच्य अप २०, ७, ८;  
ङमुच्यतम् वौश्री १३, ३४ : ५;  
६; अमुच्यताम् हिश्री २४, ३, ६;  
ङअमुच्यन् आपमं २, १२, १०<sup>६</sup>;  
आमिग्य; ङअमुच्यतम् आपश्री  
१५, ८, १२; वौश्री; ङअमुच्यत  
>ता आपश्री ६, २२, १; तैप्रा  
३, १२; मुच्येत् शंघ २२६.  
मुमुचे शांश्री १६, ११, २; मुमुच  
वृदे ६, १५; मुमुचुः वृदे ६, ८९;  
मुमुचिम वैताश्री १०, १७ ङ;  
ङमुक्षीय आपश्री ८, १८, ३;  
वौश्री; या १४, ३२<sup>६</sup>; ङमौक्  
वौश्री १, ११ : ११; १६ : २१;  
भाश्री २, १, ९; ङअमुक्तम्<sup>१</sup>  
आपश्री १९, २५, ६; हिश्री २२,  
५, १७.  
मुच्यते वाश्री ३, ४, ५, १९;  
कौग्य ४, १, ४; ९; आमिग्य; या  
५, १९ ङ; मुच्यन्ते वौध १, १०,  
३०; ४, २, ६; मुच्यस्व सु ११,  
६; मुच्येत सु ३१, ६; अप ३५,  
२, ७; ५४, २, ६; शंघ ३७०;  
वौध २, १, १६; मुच्येय वौश्री  
२७, १४ : १६ ङ.  
अमोचि आपमं २, १२, ९;  
मोचि वाश्री १, ६, ५, १० ङ.  
अमुक्याः अत्र २, १० ङ<sup>१</sup>.  
मुमुक्षते आश्री ४, ११, ६.

मुक्त, क्त- -क्तः सु २९, १<sup>३</sup>; ४<sup>२</sup>.  
कौग्य; -क्तम् शांश्री १, १५, १०;  
माग्य; -क्तयोः अप ५३, ६, ५;  
विध ६८, २; -क्ता सु २९, १;  
४; -क्ताः माशि ४, ८; दंवि १,  
३.  
मुक्त-केश<sup>क</sup>- -शाः वाध २, २१.  
मुक्त-ग्रन्थि<sup>क</sup>- -न्थीन् वैश्री ५,  
५ : ३.  
मुक्त-वन्ध, न्धा<sup>क</sup>- -न्धाः वैग्य १,  
१० : २; -न्धे वैग्य ५, १ : २१  
मुक्त-योनिदोष<sup>क</sup>- -वाः वैग्य ५,  
१३ : ३.  
मुक्त-शि(खा >)ख<sup>क</sup>- -खः वैग्य  
५, ५ : २०; गौपि १, २, २; शंघ  
२५; वौध १, ५, १५; -खाः वैग्य  
५, ६ : ९; गौध २०, ५.  
मुक्त-संशय<sup>क</sup>- -यम् पावा १, २,  
६४; -ये पावा ३, २, १२३;  
-येन पावा ३, १, २६; ४, ३, २९.  
मुक्ति- -क्तिः माग्य १, १३, १५ ङ;  
अप २३, १४, ४; वैध १, ११,  
१२; १३; -क्तिम् वैध १, ११,  
१३.  
मुक्ति-द- -दम् अप २३, १४,  
५.  
मुक्ति-सिद्धय(द्धि-अ)र्थ- -र्थम्  
अप २६, ३, ४.  
मुक्त्वा पाग्य ३, ७, ३ ङ; वैग्यः  
मुक्षा<sup>१</sup>-> ✓मुक्षीय<sup>म्</sup> >मुक्षी-  
यमाण- -णः माग्य १, १३, १५.  
मुचिर- पाठ १, ५१.  
मुच्य वौध २, ९, ४.

a) ✓थक्ल् इति [पक्षे] BPG. 1 b) पा ७, १, ५९; ४, ५७ परामृष्टः द्र. 1 c) हेः पिच्वाद्

गुणः (पा ३, ४, ८८) । d) पामे. वैप १, २१९१ । द्र. 1 e) घा. शुद्धौ अपि वृत्तिः । f) पामे. वैप २, ३३८.  
मुच्यतु मंत्रा १, १, १० टि. द्र. 1 g) पामे. पृ १५५९ k द्र. 1 h) पामे. वैप १, २५०५ e द्र. 1 i) सपा.  
तै २, ३, १३, १ मुच्यतम् इति पामे. 1 j) सपा. शौ २, १०, ६ अमुक्याः इति पामे. 1 k) वस. 1 l) भाप. 1  
m) क्यजन्तः नाधा. 1

√मुच्यमा(न>)ना- नाम् आमिगृ  
 ३,२,६:५; भागृ २,१७:६.  
 मुञ्चत्-ञन्तम् शंघ २५४.  
 मुमुञ्चु- क्षुणा विध ९६,९८; -चो:  
 वैश्रौ २,९:१.  
 मुमुचान<sup>१</sup>- पाठ २, ९३; -तंन:  
 आपश्रौ १९,१०,५; हिश्रौ २३,  
 १,५५; वौष ४,४,४.  
 मोक्ष्य- न्या: अप १९<sup>२</sup>,५,६.  
 मोक्ष<sup>३</sup>- पाठभो २,३,१६८; -क्ष:  
 सु १०,३; अप ३५,१,१४; वाघ  
 १०, २०; आपघ १, २५, ४;  
 हिघ १,७,१; पाशि २५; -क्षम्  
 वैध १,७,८; ९,२,३; याशि २,  
 ३४; ३५.  
 मौक्ष<sup>४</sup>- क्षम् निसू ६,८:  
 १८; ९, ४:३१; -त्स्य द्राश्रौ  
 ९,३,३; लाश्रौ ३,६,२२.  
 मौक्ष-सोम-सामन्-  
 मनी द्राश्रौ ९, ३,४; लाश्रौ ३,  
 ६,२३.  
 मोक्ष-कर- नम् अप ३१,१०,२.  
 मोक्ष-काङ्क्षन्- -ङ्क्षणा वैध  
 १,११,१३.  
 मोक्ष-काल- स्ते अप ४०,५,५.  
 मोक्ष-विद्<sup>५</sup>- -वित् वाघ १०,  
 २३; -वित्: आमिगृ ३,४,४:  
 ११; वौपि ३,४,१४; १५.  
 मोक्ष-संसार-मोचन<sup>६</sup>- -नम्  
 वाघ २९,२०.  
 मोक्षा(क्ष-अ)र्थे-> र्थिन्<sup>७</sup>-  
 -र्थिन: वैध १,९, १.  
 मोक्षण- नम् अप ४०, ५, ५; -णे

अप ६५,२,६.  
 मोक्षयिष्यत्- -ष्यन् गौघ ९,७१.  
 मोक्षित- -त: अप ४१,४,४.  
 मोचन- -नात् या ५,१९;६,१; ३.  
 मोचयितुम् सु १०,२.  
 मोचयित्वा वैगृ २,१३:४; शंघ ३७९.  
 मोच्य- -च्य: गौघ १२,१.  
 मुचिर- √मुच् द्र.  
 मुचुकर्ण-(>मौचुकर्णिक- पा.) पाग  
 ४,२,८०.  
 मुचुकुन्द- पाठभो २,२,१६९.  
 मुच्य √मुच् द्र.  
 √मुञ्ज्,ञ्ज् पाधा. भ्वा. पर. शब्दे.  
 √मुञ्च् √मुच् द्र.  
 √मुञ्च् पाधा. भ्वा. आत्म. कल्कने  
 कथने च.  
 श्मुञ्ज<sup>८</sup>- -ञ्ज: या ९, ९४; -ञ्जान्  
 आपश्रौ १५,४,२; १६, ९, ६;  
 भाश्रौ ११,३,१६; माश्रौ ६, १,  
 ३,२३; हिश्रौ ११,३, ६; कौस्  
 ३३,१; -ञ्जानाम् शाश्रौ १७,४,  
 ५; -ञ्जै: माश्रौ २,१,४,३४.  
 मौञ्ज<sup>९</sup>- -ञ्ज: माश्रौ ४, २, २;  
 -ञ्जम् काश्रौ १७, २, ८; २६,  
 २,७; वौश्रौ ९, ५: ८<sup>२</sup>; १५:  
 ७; १०, १२: ७; माश्रौ; हिपि  
 १५: ६, -ञ्जा: काश्रौ १३,  
 २,२६; -ञ्जान् आपश्रौ २१,  
 १७,९; -ञ्जानि आपश्रौ १५,  
 ५, १७; भाश्रौ ११, ५, २२;  
 वैश्रौ; -ञ्जे आपश्रौ १५,५,२०;  
 १६, १०, ८; माश्रौ; -ञ्जेन  
 आपश्रौ २, ५, ४; १६, ३, ७;

वौश्रौ; -ञ्जै: कौस् ३२, ३;  
 ४६, २६; -ञ्जौ भाश्रौ ११, ५,  
 २१; वाधूश्रौ ३,१००:४.  
 मौञ्जी- -ञ्जी आपश्रौ  
 १०,९, १३; २०,२,७; वाधूश्रौ;  
 -ञ्जीभि: शाश्रौ १७, २, ९;  
 आपश्रौ; वाश्रौ ३, २,५,२५ १६;  
 -ञ्जीभ्याम् वौश्रौ १५, ६:  
 ६; -ञ्जीम् वौश्रौ १५, २: ३;  
 भाश्रौ; -ञ्ज्य: द्राश्रौ ११, १,  
 २; लाश्रौ ४, १, २, विध २७,  
 १८; -ञ्ज्या आपश्रौ २१, १७,  
 १३; भाश्रौ १०, ९, १०; वैश्रौ  
 १२, ९: ४; भागृ १, ६: ६;  
 हिपि १३: ९; -ञ्ज्याम् वाधूश्रौ  
 ३, ६९: ३५; -ञ्ज्यौ शाश्रौ  
 १७,२,१; वौश्रौ १०,१: २.  
 मौञ्जी-ज्यामौर्वि-  
 सौत्री<sup>१०</sup>- -ज्य: गौघ १, १७.  
 मौञ्जि L,ञ्जी<sup>११</sup>-  
 वन्धन<sup>१</sup>- -नम् विध २८, ३७;  
 -नात् वाघ २,६; वौष १,२,७;  
 विध २८,४०; -ने वाघ २,३.  
 मौञ्जी-मेखला-  
 -लाम् आमिगृ १, १, १: १६.  
 मौञ्ज-परिहि(त>)ता-  
 -ता: कौस् २१,१४.  
 मौञ्ज-प्रश्न<sup>१२</sup>- -श्नेन कौस्  
 २६,२.  
 मौञ्ज-विक्रय(न>)नी<sup>१</sup>-  
 -नी भाश्रौ १०,२०,८<sup>म</sup>.  
 मौञ्ज-चिवा(न>)ना<sup>१३</sup>- -ना  
 आपश्रौ १०,२९,७<sup>म</sup>; १६,१०,

a) वैप १ द्र. । b) = साम-विशेष- । c) उप. < √विद् L ज्ञाने J । d) वृत्त.>उत्स. उप.  
 चर्तारि क्त । e) = संन्यासि-विशेष- । f) विप. ( २वेद-, तन्तु- प्रमृ. ) । वैप १ द्र. । g) ञ्जि इति पाठः ? यनि.  
 शोघः । h) द्वस. सौत्री- = शक्यतान्तर्वा- ( तु. मनु: [२,४२] ) । i) विध २८,४० पाठः । j) पस. पूष. वा ह्रस्वः  
 ( पा ६,३,६३ ) । k) क्त. उप. = उष्णीष- वा इषव- वा । l) उत्स. उप. < वि√वे । m) परपरं  
 पाप्मे. । n) वस. ।



१६; १९, ९, १०; वैश्रौ १२, २१; २१<sup>a</sup>; हिश्रौ ७, ३, २२; ११, ३, ३८; २३, १, ४८; -नाम् आपश्रौ २१, १७, १२; द्राश्रौ १, ४, १; लाश्रौ ३, १२, १.

मौञ्ज-वेद<sup>b</sup>-दम् भाश्रौ ११, १५, ३; २४.

मौञ्ज-शिक्य, क्या- -क्यम् वाश्रौ २, १, ३, ५; -क्या वाश्रौ २, १, ३, ४.

मौञ्जिन्- -ञी शंघ ३९०.

मुञ्ज-कल्क-हलि- -लिघु पा ३, १, १७७.

मुञ्ज-काश-ताम्बली<sup>c</sup>- -ल्यः गोगृ २, १०, ९.

मुञ्ज-कुलाय<sup>d</sup>- -यम् वौश्रौ २, ६; २६; १२; ५×५; वैश्रौ; -येन आपश्रौ १६, ९, ४; हिश्रौ ११, ३, ३.

मुञ्जकुलाय-प्रभृति- -तिना वौश्रौ २९, ६; १०; -तीनि वैश्रौ २१, १७; ६.

मुञ्जकुलाय-स्थिति- -तिम् जैश्रौका १८.

मुञ्जकुलाया(य-अ)वस्ती(र्ण>) णी- -णाम् काश्रौ १६, ४, ३१.

मुञ्ज-केश- फि ७२.

मुञ्ज-ज्या-वल्ज-म( य>)यी- -ल्यः विध २७, १८<sup>e</sup>.

मौञ्ज-नेजन<sup>f</sup>- -नम् ऋपा ८, ३२.

मुञ्ज-प्रलव<sup>g</sup>- -वाः वाधुश्रौ ३, १००; ४; वैश्रौ १३, ७; २१;

-वान् आपश्रौ १५, ५, २०; ७, ३१; काश्रौ; हिश्रौ २४, २, ६१<sup>h</sup>;

-वैः वौश्रौ ९, १४; १७; १६; ३.

मुञ्ज-वल्ज- -जैः आपघ १, २१, १; हिघ १, ६, ३०.

मुञ्ज-म(य>)यी- -यी काश्रु ७, १४.

मुञ्ज-मि(श्र>)श्रा- -श्राम् जैगृ १, १२; ४९.

मुञ्ज-मेखला- -लाम् गोगृ २, १०, ३३; द्रागृ २, ४, २०.

मुञ्ज-योक्त्र- -क्त्रेण काश्रौ २, ७, १; १६, ३, ५.

मुञ्ज-रञ्जु- -ञ्जवः काश्रौ १६, ५, २.

मुञ्ज-वत्<sup>i</sup>- -वान् या ९, ८.

मुञ्ज-वेद- -दम् काश्रौ २६, २, १९; -देन काश्रौ २६, ५, १५.

मुञ्ज-शिरस्<sup>j</sup>- -रः कौसू २५, ६.

मुञ्जा(ज-अ)भाव- -वे द्राश्रौ १०, ४, ३; लाश्रौ ३, १२, ३; पागृ २, ५, २४;

मुञ्जा(ञ-अ)वलोप<sup>k</sup>- -पान् माश्रौ १, ५, ३, १.

२मुञ्ज<sup>l</sup>- -पाग ४, १, ९९.

मौञ्जायन- पा ४, १, ९९;

पाग ४, १, ७३; ५, ३, ११६<sup>1</sup>;

-नाः वौश्रौप्र ४३; ३.

मौञ्जायनी- पा ४, १,

७३.

मौञ्जायनीय- पा ५, ३,

११६.

मुञ्जक<sup>m</sup>- >मौञ्जकि- -क्यः वौश्रौप्र ४९; ३.

√मुद् पाधा. भ्वा. पर. प्रमर्दने<sup>n</sup>; तुदा. पर. आक्षिपमर्दनयोः; चुरा. पर. संचूर्णने.

√मुद् पाधा. भ्वा. पर. मर्दने; तुदा पर. उत्सर्गे<sup>o</sup>.

†मुडिञ्जाना अप ४८, ११६.

√मुण पाधा. तुदा. पर. प्रतिज्ञाने.

√मुण्ट पाधा. भ्वा. आत्म. पालने.

√मुण्ड पाधा. भ्वा. आत्म. मार्जने मुण्डने<sup>p</sup>च, पर. खराडने प्रमर्दने<sup>q</sup> च >मुण्ड, ण्डा<sup>r</sup>- पाग २, १, ५९; ४, ३१; -ण्डः कागृ १, २४; मागृ; -ण्डाः कागृ ४०, ४; कागृउ ४४; २०; -ण्डान् मागृ २, १४, ८; -ण्डाम् आपगृ ३, १२; -ण्डेन विध २८, ४१.

मौण्डय- -ण्डयम् वैगृ २, ५.

८; वैध २, १, २.

मुण्ड-जटिल-शिखाजट- -टाः गौध १, २९.

मुण्ड-तारा<sup>s</sup>- -राः अप ५२, ५, १.

मुण्ड-संभावित<sup>t</sup>- -पा २, १, ५९.

√मुण्डि पा ३, १, २१.

मुण्डिन्- -ण्डी अप ४०, २, ९.

मुण्डित- -तः वैध २, ६, २.

मुण्डिभ<sup>u</sup>- -भः शुभ ३, ४७.

√मुद् पाधा. भ्वा. आत्म. हर्षे; चुरा. उभ. संसर्गे, मोदते वौध २, ९, ५; ४, ८, १२; मोदन्ते अप ६२, ५.

a) मो<sup>o</sup> इति पाठः? यनि. शोधः। b) उप. = २वेद-। c) ताम्बली- (= शणतान्तवी- < तम्बल- )। ष्तासूनी- (< तासून- ) इति संस्कर्तुः टि. पाभे.। d) मलो. कस. (तु. वैप २, ३खं; वैतु. वौश्रौ. सूची वस. इति ?)। e) षमयः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. जीसं.)। f) वैप १ द्र.। g) उप. = खराड-। h) प्र-लवान् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सप्र. आपश्रौ १५, ५, २०)। i) = पर्वत-विशेष-। j) पुष्पाधार-काष्ठ-। k) व्यप.। व्यु. ?। l) = आयुधजीविसंघविशेष-। m) तु. BPG.। n) विप. (मुण्डित-शिरस्-), नाप. (शिरस्- )। o) मंलो. कस.। p) तु. पागम.। q) या ९, ५; ११, ७ परामृष्टः द्र.।

४, ४; ऋमोदाम आपमं २, ५, १६; आमिगृ १, १, ४ : १२; भाग; मोदेत अग ४, २, १२; आपथ १, २२, ८; हिघ १, ६, ८.  
 मुद्- पावा ३, ३, १०८<sup>५</sup>; मुद्: अप ६२, ४, ४; शंघ ११६ : १६<sup>५</sup><sup>५</sup>; मुदा वागृ १५, २४; वृदे ५, ५३.  
 मुद्-गिल-लः या ९, २४.  
 मु(द >)दा<sup>५</sup> - ऋदा<sup>५</sup> आमिगृ १, ५, २ : ४७; वैगृ १, १८ : ७.  
 मुदित-तः अप ६८, ४, २; -ताः अप ५२, १६, ७; ७१, १९, ९.  
 ऋमोद्<sup>५</sup> -ः आमिगृ १, ५, १ : ९; -दाः सु २५, ५; -दाय आपथौ १९, ७, ४; वाथौ ३, २, ७, ६७; हिथौ २३, १, २६.  
 मोद इव<sup>५</sup> आपथौ १२, २७, १२<sup>३</sup>; १४<sup>३</sup>; १७; १३, १३, ९; १०; १४, ३, ४; वौथौ; मोद इवम् आपथौ १२, २७, १५<sup>३</sup>; मोद इवोम् आपथौ १२, २७, १५; वैथौ १५, ३६ : २; मोदा मोद् इव आथौ १३, १३, ८-१०××; वौथौ; मोदा मोद् इवोम् वैथौ १५, ३५ : १५; मोदामोदैव माथौ २, ५, १, ४७; मोदामोदैवो शाथौ १२, ११, १०; मोदामोदैवोम् आथौ ५, २०, ६; मोदैव आथौ ५, ९, ४; ५××; शाथौ; मोदैवमदे आथौ ६, ३, १४; शाथौ; मोदैवोम् आथौ ८, ३, ११××; मोदैवोश्म् आथौ ७, ११, १५××; माथौ.  
 मोदक- पाग २, ४, ३१; -कान्

अग ६, १, ७; -कानि शंघ २२६.  
 मोदति->ति-कर्मन्-संणः या ९, ५.  
 ऋमोदन->न-जिह्व<sup>५</sup>-ह्वम् या ६, २३.  
 ऋमोदमान, ना-नः<sup>५</sup> काथौ २५, ५, २८; आपथौ<sup>५</sup> ६, २७, ३××; वैथौ १८, १४ : १३<sup>५</sup>; हिथौ<sup>५</sup> ६, ७, ८; ११, ६, १४; आगृ; कौगृ ३, ४, ५<sup>५</sup>; शागृ ३, ७, २<sup>५</sup>; भागृ १, २७ : ३<sup>५</sup>; हिगृ १, २९, १<sup>५</sup>; -ना सु ३, ५; कागृ २७, ३<sup>५</sup>; -नाः ऋकौसु ४०, १३; ७०, १; -नाथ या ११, ९.  
 मोदमानी<sup>५</sup>-नीम् कौगृ १, १४, ११; शागृ १, २२, १६.  
 मोदि(त >)ता-ताः अप ६२, ४, ४.  
 मुदिर-पाठ १, ५१.  
 मुदेर-पाठमो २, ३, ६१.  
 मुद्<sup>५</sup>-पाठ १, १२८; पाग ४, ३, १३६; -द्वाः कप्र ३, ७, १३; -द्वाः विघ ८०, १.  
 ऋमोद्-पा ४, ३, १३६; ४, २५.  
 मुद्-गिल-लः या ९, २४.  
 मुद्-पायस-मिध्रधान्य-मोदक-कानि अप २०, ३, ४.  
 मुद्ग-वत्-वान् या ९, २४.  
 मुद्वा(द्-श्च)ञ-ञम् आग्निगृ २, ५, ६ : ८.  
 मुद्वा(द्-श्चो)दन-नम् कौगृ १, १४, ३; शागृ १, २२, ५.  
 मुद्दर<sup>५</sup>-पाठमो २, ३, ३६<sup>५</sup>; -रः काशु ७, ८; -रम् काशु ७, ११.

मुद्दल<sup>५</sup>-पाठमो २, ३, ९९; पाग ४, १, १०५; २, १११; -लः ऋअ २, १०, १०२; वृदे; या ९, २३<sup>५</sup>; २४<sup>५</sup>; -लम् अप्रा ३, ४, १<sup>५</sup>; -लस्य चाअ ४२ : ४; -लाः<sup>५</sup> वौथौप्र २५ : १; ३; ३० : १; ३; -लानाम्<sup>५</sup> आथौ १२, १२, १; आपथौ २४, ८, ७; वैघ ४, ३, ९.  
 मुद्दलानी-पावा ४, १, ४९.  
 मौद्दल्य-पा ४, १, १०५; पाग ४, २, ८०; -ल्य आथौ १२, १२, १<sup>३</sup>; आपथौ २४, ८, ७; ८; वौथौप्र २५ : ३; वैघ ४, ३, ९; -ल्यः वौथौ १६, १४ : १६××; वौघ; या ११, ६; -ल्यस्य वौथौ २०, १३ : २०; २३, १९ : ३१.  
 मौद्दल-पा ४, २, १११.  
 मौद्दलीय-पा ४, २, ८०.  
 मुद्दल-वत् आपथौ २४, ८, ७; ८; वौथौप्र २५ : ४; वैघ ४, ३, ९.  
 मुद्वा-पाठ २, १३; पाग ५, २, ३६; ४, ३<sup>५</sup>.  
 मु(द्वा < द्वा | क >)द्विका-पा ५, ४, ३.  
 मुदित-पा ५, २, ३६.  
 मुघा<sup>५</sup> पाग १, १, ३७; ४, ५७; वृदे ७, ४३.  
 मुनि<sup>५</sup>-पाठ ४, १२३; पाग ४, १, ४५; ११२; २, ८०<sup>५</sup>; ५, २, १००<sup>५</sup>; ३, १०८; ६, २, ८५; ३, ११९; -नयः सु १, ३; १३, ४; अप; -निः वैगृ २, १ : १७; वाघ; -निभिः अप २३, ७, ५; ५१,

a) तु. पागम. । b) पल्लवरे पागे. । c) वैप १ द. । d) भावे कर्तारि च कृत् । e) वैप १, २५०६ f द. ( वैगृ. सा 1 ऐत्रा ३. १२ ] आसोद इति ) । f) वस. । g) पागे. पृ १६०८ f द. । h) पागे. वैप १, २५०६ j द. । i) = गाथा-विशेष- । महाकाली- इति भाष्यम् ? । j) नाप. । k) <√मुद् । l) पृ. = <मौद्दल्य- । m) श्रव्य. । .. अर्थः ? । मुनिस्थल- टि. द्र. । o) पाक. शुनि-इति ? ।

१, २; शंघ; -निभ्यः वैगृ २,  
१२ : १०; -निम् वृदे ७, ४७;  
-नीनाम् वौगृ ३, ५, १११;  
-०ने श्रप ७०, १, २; -नेः वौश्री  
१८, १२ : १६; भागृ.  
मुनी- पा ४, १, ४५.  
१मौन- -नम् श्रप ४२, २, ७;  
शंघ; -नात् वाध २९, ५; विध  
५५, १७; -ने वौध २, १०, ५७.  
मौन-व्रत- -तेन वैगृ २, ८ :  
४; ६.  
मौनव्रतिन्- -ती वौध ४,  
७, ६.  
मौनिन्- -निनः वैध १, ८,  
११; -नी श्रामिगृ २, ४, ५ :  
२१; जैगृ २, ८ : ११; वैध २,  
१२, ६.  
२मौन<sup>b</sup>- पा ४, १, ११२; -नः  
वौश्रीप्र ६ : १.  
मौनिक- पा ४, २, ८०; ५, ३,  
१०८.  
मुनि-काण्ठ<sup>c</sup>- -ण्ठे भाशि ८११.  
मुनि-चित्त, त्त<sup>d</sup>- ( > मौनिचित्ति  
[त्ति]- पा.) पाग ४, २, ८०.  
मुनि-प(द् >)दी- पाग ५, ४, १३९.  
मुनि-मुख्य- -ख्यैः वौध १, ४, १६.  
मुनि-वसु-पिशाच- -चाः कप्र ३, ६,  
९.  
मुनि-व्रत<sup>e</sup>- -तः कागृ ४, १४.  
मुनि-श- पा ५, २, १००.  
मुनि-सत्तम- -मः वृदे ८, १८.  
मुनि-सत्रे(त्र-इ)ष्टि- -ष्टया शाश्री  
१४, ६, ६.

मुनि-स्थ, स्थूल- (> मौनिस्थ  
[स्थूल] लिक- पा.) पाग ४, २,  
८०६.  
मु(नि >)नी-व(त् >)ती- पा ६,  
३, ११९.  
मुन्य(नि-श्र)न्न- -ज्ञानाम् विध ५१,  
७७.  
मुन्य(नि-अ)यन- -नम् शाश्री ३,  
११, १०; वौश्री १६, ३ : १.  
मुमुक्षु-, मुमुक्षान- ✓मुचू द्र.  
मुमुषत्-, °मुषु- ✓मृ द्र.  
✓मुसू पाधा. तुदा. पर. संवेष्टने.  
मोर- पाग ३, १, १३४.  
मुर<sup>b</sup>- (> मौर्य- पा.) पाग ४, १,  
१५१.  
मुरज- पाठभो २, २, ९१.  
मुरल- पाठभो २, ३, ९९; पा, पाग ४,  
१, १७३<sup>b</sup>.  
✓मुसू ✓मूळ द्र.  
मुसूर- पाठभो २, ३, ५२.  
✓मुसू पाधा. भ्वा. पर. वन्धने.  
✓मुसू<sup>c</sup> पाधा. चुरा. पर. रोहणे.  
१मुल<sup>d</sup>- (> °ल-वत्-, °लिन्- पा.)  
पाग ५, २, १३६.  
२मुल- १मूल- टि. द्र.  
मुशल<sup>e</sup>- पाठवृ १, १०६.  
✓मुप् (वधा.)<sup>h</sup> पाधा. भ्वा.<sup>1</sup>  
क्या. पर. स्तेये; दिवा. पर.  
खरडने, मोपथ > था या ६,  
४१; ऋपा ७, ३३.  
मुष्णाति वौश्री २५, १० : १४.  
मुष्यते द्राश्री ३, ४, २१; आपध  
२, २६, ८; हिघ २, ५, २०३.

मुमुषाण- पाठना २, ८९.  
मुषि- > मुषी-वत्- -वान् निध  
३, २४१.  
मुषि(त >)ता- -ताम् कागृ १, १८;  
मागृ १, १, ८.  
मोषण- -णात् या ६, १; ३.  
मोष्य<sup>m</sup>- -ष्यः वाध १९, २२.  
मुषल<sup>n</sup>- पाठवृ १, १०६; -लम् लाश्री  
८, ८, ३१.  
मुष्क<sup>k</sup>- पाठ ३, ४१; -फक्कयोः  
श्रामिगृ १, ५, १; ८; १०; -फक्कौ  
शाश्री १२, २४, २; ३; लाश्री  
९, १०, ५.  
मुष्क-र- पा ५, २, १०७; -रः  
श्रापश्री ३, १५, ७; -रम् श्रापश्री  
५, २०, १६; माश्री १, ५, ६, ९;  
-राः हिश्री ११, २, १; -रान्  
श्रापश्री १६, ७, १; वाश्री २, १,  
२, ३; वैश्री १८, ४ : १३.  
मुष्क-वत्- -वान् ऋअ २, १०, ३८.  
मुष्टि<sup>k</sup>- पाठभो २, १, १८९; पाग ४,  
२, ८६<sup>n</sup>; -ष्टिः या ६, ११; माशि  
२, ११; -ष्टिना शाश्री ४, ३; ६;  
श्रापश्री; -ष्टिभिः -वाधुश्री ४,  
७४ : ७; वैगृ ५, ३ : १२; -ष्टिम्  
आश्री १०, ८, १०१<sup>o</sup>; शाश्री  
१६, ४, ११<sup>o</sup>; श्रापश्री; कौगृ ४,  
४, ३<sup>p</sup>; -ष्टी श्रापश्री १०, १८,  
२; ११, २, १××; वौश्री; -ष्टीन्  
काश्री २, ३, २०; श्रापश्री;  
-ष्टीनाम् मीसू ६, ५, १८; -ष्टेः  
मीसू १०, २, ६४; -ष्टौ काश्री  
१, ७, ११; पा, पावा ३, ३, ३६;

a) = वानप्रस्थ-विशेष-। b) व्यप.। c) कस. पूष. = सत्तम-। d) पाका. पागम. पाठः।  
e) वस.। f) पाका. पाठः। g) मुनि-स्थल-इति [पक्षे] पागम.। h) तु. पागम.। i) तु. BPG.।  
j) = मुसल-। k) वैप १-द्र.। l) शौच २, ७६ या ४, ५ पा १, २, ८ परामृष्टः द्र.। m) धा. उन्मोचने वृत्तिः।  
n) तु. पाका.। रुष्टि- इति भाण्डा. पासि., रिष्टि- इति पागम., हृष्टि- इति [पक्षे] पाका.। o) वैप १, २५०८ d द्र.।  
p) पामे. वृ १६२९८ द्र.।  
वैप-४-६५

-ध्याम् कप्र २,९,२५.  
 मुष्टि-कपाला (ल-अ)वदाना (न-अ)  
 ज्ञना, न-अ)भ्यजन-वपन-पावन-  
 न्नेषु नीत् ५,२,४.  
 मुष्टि-करण<sup>१</sup>- णम् वौश्रौ २१,  
 ९:२४; वैश्रौ १८,७:९; ९:११;  
 -णा: वौश्रौ २१,९:२१<sup>२</sup>; -णात्  
 माश्रौ ६,१,३, २१; हिश्रौ ११,  
 ३,३; -णे वौश्रौ २१, ९:२४.  
 मुष्टिकरण-प्रभृति- -ति आपश्रौ  
 १६, ११, १०; माश्रौ ६, १,४,  
 १९; -तीनि हिश्रौ ११,४,१.  
 मुष्टिकरणप्रभृति-कर्मन्-  
 -र्माणि वैश्रौ १८,९:१.  
 मुष्टिकरण-वाग्यमन- -ने काश्रौ  
 ७,४,४.  
 मुष्टिकरणा(ण-आ)दि- -दि वाश्रौ  
 २,१,३,१९.  
 मुष्टि-कर्मन्- -र्मण: आपश्रौ १६,  
 ९,४.  
 मुष्टि-(क>)का<sup>३</sup>->का(का-आ)  
 कृति<sup>४</sup>- -ति: याशि १,४४.  
 मुष्टि-नाह<sup>५</sup>- -हम् वैश्रौ १२,९:१०.  
 मुष्टि-धम- पा ३,२,३०; पावा ३,  
 २,२९.  
 मुष्टि-धय- पा ३,२,३०.  
 मुष्टि-परामर्शम् वाधुश्रौ ४,७४:८.  
 मुष्टि-प्रमाण- णम् आमिष्ट ३,११,  
 १:४; वौषि २,१०,२.  
 मुष्टि-प्रसृता(त-अ)ञ्जलि<sup>६</sup>- -लिभि:  
 कौत् ६१,११.  
 मुष्टि-बन्धिन्- -न्धी याशि १,४४.  
 मुष्टि-मात्र- -त्र: हिश्रौ ७, १, ५५;

-त्रम् अप २३,२,३.  
 मुष्टिमात्री- -त्रीम् हिश्रौ ११,  
 १,११.  
 मुष्टि-मुख- पा ६,२,१६८.  
 मुष्टि-मेखल<sup>७</sup>- -लम् काश्रौ ८,२,४.  
 मुष्टि-लोप- -पात् नीत् १०,२,६२.  
 मुष्टि-वितर्न- -र्नात् काश्रौ ७, ४,  
 १७; ८,१,९.  
 मुष्टि-संयुक्त- -क्तम् अप २२,७,२.  
 मुष्टी/कृ,मुष्टीकुल्ले माश्रौ २,१,२,  
 २०; वैश्रौ १२, २४:१४४;  
 हिश्रौ १०, ३, ३४४४; मुष्टी-  
 करोति आपश्रौ १०, ११, ४;  
 वौश्रौ ६, ५:२६; भाश्रौ; मुष्टी  
 ...करोति वौश्रौ १०, १४:८;  
 १६:११; १२, १७:१४४४;  
 मुष्टीकुरुष्व वौश्रौ ६, १९:२४;  
 मुष्टीकुर्यात् वैताश्रौ ११, २३.  
 मुष्टी-कृत्वा काश्रौ ७,३,७; माश्रौ.  
 मुष्टया(ष्टि-आ)कृति- -ति: याशि  
 १,६१; -तिम् माशि ४,१०.  
**मुष्टिनः<sup>८</sup>** वौश्रौ १७, २४:४.  
**मुसल<sup>९</sup>**- पाठभो २,३,९९; पाग २,  
 ४,३१; ४, १,४१<sup>१</sup>; ५, १, ४;  
 ६६; २,३६; ६, ३,१०८<sup>२</sup>; ८,  
 ३, १०८; -लम् काश्रौ २, ४,  
 ११; १७, ५, ३; आपश्रौ;  
 या ९, ३५<sup>३</sup>; -लस्य वौश्रौ  
 २०,६:२७; २५,३१:६; वृदे  
 ३,१०१; -लानाम् अप ६४,  
 ४,१०; -नैले काश्रौ ३, ८, १;  
 आपश्रौ; -लेन आपश्रौ २०,२,  
 १२; वौश्रौ; -लै: विध ४२,३८<sup>४</sup>.

मुसली- पा ४,१,४१<sup>१</sup>;  
 १मौसल<sup>५</sup>- -ल: कौत् ९२,६;  
 -ला: आश्रौ ९,७,६; -ले शुष  
 १,५५.  
 १मौसली- -ली: अशां २१,  
 २; -ल्यौ ऋअ २,१,२८.  
 मुसल-धर्म- -र्मान् आपश्रौ १२,  
 ४,१५.  
 मुसल-प्रपतन- -ने माष्ट २,१५,६.  
 मुसल-प्रपात- -त: अप ३७,१,६१<sup>६</sup>.  
 मुसल-बुध्न<sup>७</sup>- -ध्नेन कौत् २९,२२.  
 मुसल-संसर्ग- -र्गे माष्ट २, १५,  
 ६०.  
 मुसला(ल-आ)कृति<sup>८</sup>- -ति: अप  
 ५४, २,२.  
 मुसलित- पा ५,२,३६.  
 मुसलित्- -ली नौष १२, ४०.  
 मुसलीय- पा ५,१,४.  
 मुसलो(ल-उ)लखल- -लम् अप  
 २३, १३,२; -ले कप्र २, ५,  
 १६; वृदे १, ११३.  
 मुसल्य- पा ५,१,४;६६.  
**मुसल<sup>९</sup>**- पाग ४,१,१०५;२,१११;  
 -ला: वौश्रौप्र ४१:१६.  
 मौसल- -लय: वौश्रौप्र ४२:४.  
 मौसल्य- पा ४,१,१०५.  
 २मौसली- > ली-पुत्र-  
 -त्र: अप ४,४,१२.  
 २मौसल- पा ४,२,१११.  
 मुसल-धर्म- प्रभृ. १मुसल- द्र.  
 ✓मुस्त पावा. जुरा. पर. संघाते.  
 मु(स्त>)स्ता<sup>१०</sup>- पाठभो २,२,१३४;  
 -स्ता अप ३५,२,९.

a) = कर्म-विशेष-। उप. भावे क्त। b) = मन्त्र-विशेष-। करणे क्त। c) स्वार्थे प्र.। d) = हस्तदोष-  
 विशेष-। वस.। e) उप. करणे क्त। f) तु. कौत् ६७,२६। g) समाहारे द्वस.उप. = मेखला-। h) पाठः  
 मुष्टिना इति संस्वरुः टि.। i) वैप १ द्र.। j) तु. पागम.। k) मुप<sup>११</sup> इति जीसं.। l) = श्लेषधि-विशेष-।  
 m) चारयदेवलीयस्तत्वेदमीयश्च प्र.। n) वस.। o) तु. Knauer। p) = ऋषि-विशेष-। q) बहु. <मौसलि-  
 वा मौसल्य- वा। r) = वृण-विशेष- (नभा. नागरमोधा)।

मौस्त--स्तेन वौश्री १५, २५:३<sup>a</sup>.

मौस्त-कृत--तेन आपश्री  
२०, १५, १२<sup>a</sup>; १३<sup>क</sup>; हिश्री  
१४, ३, २३<sup>a</sup>.

मौस्त-फाण्ट--ण्टेन वाश्री  
३, ४, ३, ४४<sup>a,b</sup>.

मुस्त्र-पाठ २, १३.

✓मुह<sup>०</sup> पाधा. दिवा. पर. वैचित्ये,  
मुह्यति वैग ५, १ : २३; वौध  
२, २, १९; विध २०, ४९;  
मुह्यन्ति वाधुश्री ४, ४० : १७;  
१८; कप्र १, ४, ११; मुह्यन्तु  
या १०, २७<sup>क</sup>; मुह्येत वौश्री  
२७, १२:१४; १९; मुह्येत लुप्त  
३, १४ : ११; आपध १, २३, १;  
हिध १, ६, ९; मुह्ययाताम्  
आपश्री १४, २८, ४; हिश्री १५,  
७, १२; मुह्येयुः वौश्री १७, १४ :  
७<sup>क</sup>; माश्री ३, १, १८; हिश्री  
९, ८, ३३<sup>क</sup>.

मुमोह वृदे ७, ८८.

मोहयति वौश्री १७, १४ : ८<sup>क</sup>;  
हिश्री ९, ८, ३३.

अमुमुहव अश्र ३, २<sup>क</sup>.

फामोमुह<sup>०</sup> आश्री ८, १४, ४<sup>३</sup>;  
भाग २, ३२ : १९.

मुग्ध- फग्धाः आपश्री ३, १२,  
१; वौश्री २७, ६ : ११; वैश्री २०,  
३० : ८; गधैः वौश्री २७, ११ :  
१६; १९; गधौ वैश्री २१, १५ :  
११.

मूढा, ल्ह<sup>०</sup>]-ढः हिश्री १५, ३, २८;  
आग ३, ७, ९<sup>३</sup>; या२, २५; -ढम्

वैग ६७ : १२; -ढाः अश्र ११,  
१०<sup>क</sup>; या ६, ८; -ढे आपश्री ९,  
११, १; भाश्री ९, १४, १४; वैश्री  
२०, २० : ४.

मूढ-गर्भ-> ०र्मि(न् >)णी-  
णी वैग ५, ३:९; -णीम् वैग ५,  
९ : १३.

मूढ-स्वस्तर<sup>०</sup>-रे आपध १,  
१५, १३; हिध १, ४, ७२.

मोह-हः आपध १, २३, ५; -हम्  
विध ९६, ३४; वैध १, ११, १२;  
-हात् कप्र १, ३, ४; २, १०, ११;  
अप ६९, ९, ३; शंघ.

मोहन<sup>०</sup>-नात् या ६, १; ३; -नानि  
कौस् १४, १७.

मोहनी-फंनि अप ३६, १,  
४; -नी वौग २, १, १९<sup>३</sup>.

मोहयित्वा माग २, १८, २<sup>क</sup>.

मोहयिष्यत्-न्यन् अप्राय २, ६.

मोहित-त्तः वृदे ७, ५४.

मोहिष्यत्-न्यन् कौस् १२५, २<sup>क</sup>.

मुहिर-पाठ १, ५१.

मुहुस्(,र,ः)<sup>१</sup> सु ३, ३; वैग ५, ४,  
२८<sup>क</sup>; अप; आपध-१, ८, २२<sup>३</sup>;  
हिध १, २, ११०; या २, २५<sup>क</sup>;

पाठ २, १२०; पाग १, १, ३७;  
मुहुस्मुहुः अप ६३; २, ६;  
७०<sup>३</sup>, २०, ५; ७०<sup>३</sup>, ११, ७; शंघ.

मुहुः-सर<sup>१</sup>-रम् या ९, ३५.

मुहूर्त<sup>१</sup>-पाठ ३, ८९; पाग ४, ३,  
७३; -र्तः अप १, ५, ५; या २,  
२५<sup>क</sup>; आज्यो १, ६; -र्तम्  
काश्री ४, १५, ३२x; वौश्री;

वृदे ७, १५७; या २, २५<sup>क</sup>;  
आज्यो १, ३; १४, २; -र्तस्य  
आज्यो १, ५; ७, १६; १७;  
वेज्यो ३८; -र्तः शाश्री १४,  
८०, २; आज्यो १, ११; -र्तान्  
आपश्री १९, १२, २x; ;  
हिश्री २३, २, १३x; ;  
-र्तानाम् वौश्री १९, ३ : ३३;  
आज्यो १, ८; -र्तं अप ४, २,  
२; ५, ४, २x; ; वाध १२, ४७;  
१७, ६१; शंघ ४९; ३०४;  
वौध २, १०, २२; आज्यो ७,  
११; -र्तेन वृदे ४; ६६; ५,  
१५०; आज्यो २, ५; ६; ३; ३;  
७, १३-१५.

मौहूर्त-पा ४, ३, ७३.

मूहूर्त-ज्ञान-नम् आज्यो १, ३.

मूहूर्त-मात्रा-त्राः निसू ९, ८ : ३.

मूहूर्त-स्तोम<sup>०</sup>-माः शाश्री १४,  
८०, १.

मूहूर्ते(र्त-इ)ष्टका<sup>०</sup>-काः वौश्री  
१९, ३ : ४; ९; १५, २०; ३३.

मूहूर्ते(र्त-उ)दय-पर्वन्-र्वणाम्  
वेज्यो ४४.

मुहेर-पाठ १, ६१.

✓मू पाधा. भ्वा. आत्म. वन्धने.

१मूक<sup>१</sup>-पाठ ३, ४१; पाग ५, १,  
१२३; १२४; -कः आमिष्ट ३,  
१०, १ : ४; वौषि ३, ५, २; शंघ  
३७६; ३७७; १८; विध; -काः  
विध ४५, ३३.

मौक्य-पा ५, १, १२३; १२४.  
मूक-ता-, मूक-त्व-, मूकमन्-पा

a) परस्परं पाठे. b) फाटेन इति पाठः इ इति. शोघः । c) पा ७, २, ४५; ८, ३, ३३ परामृष्टः द. ।

d) पाठे. वैप १, ११४९ d द. । e) आग. या. पाठः । f) मूढः इति जीसं. । g) कस. उप. = [पलालाप्रमूल-

भागनिमित्त-] आसन- । h) भावाद्यर्थे प्र. । i) =मात्-विशेष- । j) वैप १ द. । k) मुहुन् इति पाठः (वृ.  
आप्यम्) ? यनि. शोघः (वृ. हिध. ) । l) उप. टः प्र. उत्सं. ( पा ३, २, १८ ) । m) =याग-विशेष- । वस. ।

n) =इष्टका-विशेष- ।

५,१,१२३.

२मूक<sup>१</sup> -कः वौश्रौप्र ६: १.

मूचिक- (> मौचिक्य- पा.) पाग

५,१,१२८.

सूचीप<sup>२</sup> -पा: शांश्रौ १५,२६,१.

सूज-> †१ मूज-वत्<sup>३</sup> -वतः आपश्रौ

१२,५,११; वौश्रौ: -वता३:

वौश्रौ ६, १४: २४; -वति या

९,८; -वत्सु वौश्रौ २,५: १९;

-वान् या ९, ८<sup>४</sup>.

मौजवत्<sup>४</sup> -तः या ९, ८<sup>५</sup>;

-तस्य माश्रौ ३, ६,४; या ९,

८<sup>६</sup>.

२मूज-वत्<sup>५</sup> -> मौजवत्<sup>६</sup> -वान्

ऋश्र २,१०,३४.

१मूढ- ✓मुद् द.

२मूढ<sup>७</sup> - पाग ४, १, १५१; -ढा:०

वौश्रौप्र १०: २.

मौढ्य- पा ४,१,१५१.

सूत<sup>८</sup> -तः लाश्रौ ८, ३, ८; -तयो:

काश्रौ ५,१०,१८; आपश्रौ: -ते

आपश्रौ ८, १७, ५; १८, ७;

वौश्रौ: -तेन माश्रौ १,७, ७, ४;

-तेषु आपश्रौ ८, १७, ६; १८,

७; २१, ३; हिश्रौ ५, ५, ६.

मूल-कार्य<sup>९</sup> -यम् काश्रौ १, ३, २३;

आपश्रौ.

मूल-कृत- तम् वौश्रौ २६, ३३: १७.

✓मूत्र पाधा. जुरा. उम. प्रसवरो.

✓मोमूय पावा ३,१,२२.

मूत्र<sup>१०</sup> - पाठ ४,१६३; पाग ५,२,३६;

-त्रम् आपश्रौ ९, १८, ९; १०,

१३, १५; वौश्रौ; -त्रे कौसु

२२,८; वौध १,५,६९; -त्रेभ्यः

आश्रौ ५,११, ३; -त्रैः वाध ३,

५९.

मूत्र-कृच्छ्र<sup>११</sup> -> ँच्छ्रन्- -च्छ्री शंघ

३७७: १२.

मूत्र-पुरीष- पा,पाग २,४,११; -पम्

आमिष्ट २,६, ८: ५; कौसु ४८,

३२; या १४,७; -पयोः आपध

१,३०,१४; १६; १८; १९; ३१,

३; वौध; -षे काश्रौ ९,६,२२;

आपश्रौ; गौध ९, ३९<sup>१२</sup>; -षेण

वाध २८,१; -षौ वैध २,९,२<sup>१</sup>.

मूत्रपुरीष-करण- -णे वौगृ ४,

११,१.

मूत्रपुरीष-प्राशन- -नम् आपध

१,२१,१६; हिध १,६,४६.

मूत्रपुरीष-मध्य- -ध्ये विध ९६,

३१.

मूत्रपुरीष-लेप- -पान् आपध१,

१५,२३; हिध १,४,८२.

मूत्रपुरीषा(प-अ)पकर्षण- -णम्

गौध ९, १५.

मूत्रपुरीषो(प-उ)त्सर्ग- -र्गम्

शंघ ४२; विध ६०,१.

मूत्र-पुरीष-पूय-शोणित-रेतः-श्लेष्मो-

(प-उ)च्छिष्टा(ए-अ)ङ्गनिष्पे-

-पान् वैध ३,२,८.

मूत्र-पुरीष-रेतस्- -तसाम् गौध

२३,४.

मूत्रपुरीषरेतो-विसर्ग- -र्गे वैध

२,१२,३.

मूत्र-पुरीष-रोहित-रेतः-प्रमृत्यु-

( ति—उ)पहत- -तानाम् वौध

१,४,५<sup>१३</sup>.

मूत्र-पुरीष-लोहित-रेतः-प्रमृत्यु-

( ति—उ)त्सर्ग- -र्गे: वौध १,

६,३२.

मूत्र-पुरीष-लोहित-रेतः-प्रमृत्यु-

( ति—उ)पहत- -तानाम् वौध

१, ६, ११; २८<sup>१</sup>; ३४<sup>१</sup>; ३७<sup>१</sup>.

मूत्र-पुरीष-वातकर्मो(र्म-उ)च्चैर्भाषा-

हास-शीवन-दन्तस्कवन-निःश्र-

ङ्खण-भ्रक्षेप-ताल-निद्य-

-द्ययानि हिध २, १,९०<sup>१</sup>.

मूत्र-पुरीष-वातकर्मो(र्म-उ)च्चैर्भाषा-

-हास-शीवन-दन्तस्खलन-निःश्र-

ङ्खण-भ्रक्षेपण-तालन-निद्य-

-द्ययानि आपध २, ५,९<sup>१</sup>.

मूत्र-पुरीष-शीवना(न-आ)दि- -दिषु

शंघ ६०.

मूत्र-पुरीष-क्षेहु-विसंसना(न-अ)

भ्यवहार-संयोग<sup>१४</sup> - -गोषु गौध

१,५०.

मूत्र-पुरीषा(प-अ)मेध्य- -द्ययानि

गौध ९,१३.

मूत्र-पुरीषा(प-अ)सक्-शुक्ल-

कुणप-स्पष्ट- -द्यानाम् वौध १,

५,४२.

मूत्र-फेन- -नेन कौसु ३१, ११.

मूत्र-मेह<sup>१५</sup> -> ँहिन- -ही शंघ

३७८.

मूत्र-मौण्डय- -ण्डयम् शंघ ३२५.

मूत्र-वत् वौध १, ५, ७३; वैध २,

९,९.

मूत्र-विसर्जन- -ने शंघ ३७७: ११.

मूत्र-शकृच्च-कुक्का(क-अ)भ्यवहार<sup>१६</sup>-

-रेषु वाध २०,२०.

मूत्र-शकृत- पाग २, २, ३१<sup>१७</sup>; ४,

११.

a) व्यप. । b) =क्षत्रिय-जाति-विशेष- । c) वैप १ द. । d) अपत्यार्थस्य प्र. लोपश्चान्दसः इति पदगुणशियः । e) बहु. <मौढ्य- । f) विप. । उस. । g) =रोग-विशेष- । h) St. पाठः । i) षे इति C. । j) परस्परं पाभे. । k) 'लोहि' इति Multschi । l) परस्परं पाभे. । m) दस.>पस.>दस.>पस. । n) दस.>पस. । o) तु. पागम. ।

मूत्रित- पा ५, २, ३६; -तः गौध  
१६, ११; -तस्य वाघ १३,  
२९.

मूत्रो(त्र-उ)च्चार- -रे गौध ९, ३८.  
मूर, रा<sup>२</sup>- पावाग ८, २, १८; -फंराः या  
६, ८६; ११, २.

मूरु-मूल<sup>२</sup>- > लो(ल-उ)पधा(न >)  
ना<sup>०</sup>- नाथै हिर २, २, ६.

मूर्ख, खार्<sup>२</sup>- पाउ ५, २२; पाग ३, ४,  
७४; ५, १, १२३; -खैः वाघ ३,  
९; वौध; -खाः वाघ ३, ६; वौध  
१, १, १२; -खान् विघ ७१,  
२; -खाम् आम्रिण ३, ५, ३ : २;  
वौपि १, ३ : १; हिपि ४ : ४;  
-खै कप्र २, ५, ८; वाघ ३, ९;  
वौध १, ५, ८३.

मूर्ख्य- पा ५, १, १२३.

मूर्ख-ता-मूर्ख-त्व- पा ५, १, १२३.

मूर्ख-संयोग- -गात् माशि १६, १५.

मूर्खिमन्- पा ५, १, १२३.

✓मूर् (<सु) चर्च्, र्छ (वधा.) पाधा.

भ्वा. पर. मोहसमुच्छ्राययोः,

मूर्छति वाश्री ३, ३, १, ४४.

मूर्च्छना<sup>०</sup>- -ना नाशि १, २, ११;

१२; -नाः नाशि १, २, ४;

९; १०; १३<sup>२</sup>; १४<sup>२</sup>.

मूर्च्छमान- -नाः विघ ४३, ३६.

मूर्च्छयिष्यत्- -प्यन् वौश्री १, ३ :

३३; २०, ४ : २९; ३०.

मूर्छयित्वा कौसू १२, २; ३५, ४.

मूर्छा- पाग ३, १, १३<sup>१</sup>; ५, २, ३६;

९७.

✓मूर्छाय पा ३, १, १३.

मूर्छा-ल- पा ५, २, ९७.

मूर्छित- पा ५, २, ३६.

मूर्त<sup>२</sup>- पाउना ३, ८९; पा ८, २,

५७; -तैम् या १, १; ७, २७;

-तैन् वृदे २, ३३.

मूर्ति- -तिः या १४, ५.

मूर्ति-मत्- -मन्तम् वृदे ७,

१४६.

मूर्तिमती- -त्यौ सु २, १.

मूर्ति-सामान्य<sup>२</sup>- -न्यात् मीसू

८, २, १५.

मूर्द्ध<sup>२</sup>, र्धन्<sup>२</sup>- पाउ १, १५९; -र्धन्

आपश्री ५, १२, २१××; १९, १,

१८; २०, २२, ६; वौश्री; -र्धनि

शाश्री १६, १८, १९; काश्री; शांगृ

१, ६, ९; १३, १××; पागृ १, ८,

५; ११, ४; मागृ १, १८, ६; २, १४,

२६१; २७; या ९, ३११११;

ऋप्रा ८, ४५; शुप्रा १, ६७;

तैप्रा २, ३७; ऋत २, १, ६;

नाशि १, ७, १; वेज्यो ४; -र्धा

फंशाश्री १, ६, १; ८, ६, २३;

शाश्री; चाघृश्री ३, ९४ : ४१!

१११<sup>१</sup>; १३; १७; २०; विघ ९६,

८९; वृदे ४, १२०; या ७,

२७१११; -र्धानम् आश्री ८, ६,

२३१; शाश्री; पागृ १, १८,

३; ६; आम्रिण २, १, ३ : ८;

वागृ ३, ९; वैगृ १, २ : १३;

१८; हिगृ २, ३, ३; द्रागृ २, ३,

१३; २९<sup>१</sup>; शंघ ५७; ९७; ११६:

५५<sup>१</sup>; विघ ६२, ८; ६८,

३८; फंसाश्री १, ६७-६८<sup>१</sup>;

-हैः वैताश्री ५, १४१; जैगृ १, ७:

५; द्रागृ; -हैर्धा आपश्री १,

४, १५; वौश्री; -हैर्धि वौश्री १५,

३७ : ३; २६, ११ : १९; वाश्री;

शैशि १२९; याशि ९; आशि

८, ७; -हैर्धोः कौसू ७८, ११.

मूर्ध-देश- -नो गोगृ २, २, १४.

मूर्धन्व्य<sup>२</sup>- -न्यः अप ४७, २, ५;

शौच १, ६३; २, ६०; पा ८, ३,

५५; -न्यम् शुप्रा ३, ४०; ७९;

- ऋत ५, ६, ७; -न्याः शुप्रा १,

७८; ८, ४२; पाशि १७; याशि

२, १; ९४; आशि १, १३;

-न्यानाम् शौच १, २२; आशि

२, ६; -न्यानि कप्र ३, १०, २;

-न्यौ कौसू १२४, १; ऋप्रा १,

४३.

मूर्धन्या(न्य-आ)पत्ति- -त्तिः

शुप्रा १, ४२.

मूर्धन्-वत्- -वतः आश्री २, १०,

११; -वता वृदे २, १८<sup>२</sup>; -वान्

आश्री १०, ६, ३; वाघृश्री ४, ४७:

४<sup>२</sup>; ऋग्र २, १०, ८८<sup>२</sup>.

मूर्धन्वती- पा ४, ४, १२७<sup>०</sup>;

-ती<sup>२</sup> वौश्री २६, ४ : १४; निस्

१०, १ : ४; -तीः<sup>०</sup> वौश्री १०,

३८ : १५; हिश्री १२, १, ५; ४१;

८, २; -तीभ्याम्<sup>२</sup> आपश्री १६,

२२, ७; वैश्री १८, १७ : १३;

हिश्री ११, ७, २५; २६<sup>१</sup>; -त्याः<sup>२</sup>

शुग्र १, १८१.

मूर्ध-भिन्न, त्ना- -न्नाः सु २५, ६;

-न्नेन वौश्री १७, ४५ : १.

a) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र. । b) = उदुम्बरमूल- इति भाष्यम्? Old. च । c) विप. [सोप्यन्ती-] व्री- )। बस. । पृ ७५३ ऊरुमूलो इति नेष्टम् । d) वैप १ द्र. । e) = संगीत-प्रकार- । f) तु. पागम. । g) पप. = घनत्व- । h) शांगृ. पागृ. प्रष्ट. पाठः । i) सु<sup>०</sup> इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. उत्तरं स्थलम्) । j) मूर्धनि इति आन. । k) = मृगु-विशेष- । l) णम् इति पाठः ? यनि. शोधः । m) विप., नाप. ( [मूर्धस्थानीय-] वर्ण- ) । n) व्यप. । o) = इष्टका- । मूर्धन्वत्-वत्- > यनि. । p) = ऋच- ।

मूर्ध-ललाट-नासाग्र-प्रमाण<sup>०</sup> -णाः

वौध १, २, १६; गौध १, २८.

मूर्धा(र्ध-अ)क्षि-करण-वक्तू- -क्ताणि  
कप्र १, ७, ८.

मूर्धा(र्ध-अ)वसिक्त<sup>०</sup> -> ऋ-क्षत्रि-  
य-धीवर-पुलकस- -सान् गौध  
४, १९.

मूर्ध्नि-गत- -तम् याशि १, २९.

१मूर्धपधानाय<sup>०</sup> आमिष्ट २, १, १ :  
१४.

✓मूल पाधा. भ्वा. पर. प्रतिष्ठायाम् ;  
चुरा. पर. रोहणे.

१मूल<sup>०</sup> - पाठ ४, १०८; पाग २, ४,  
३१; ४, २, ८०<sup>३०</sup>; ५, १, ५०;  
१२३<sup>३</sup>; ४, ३; पावाग ८, २, १८;  
-लम् आश्रौ १२, १२, ६; काश्रौ;  
आपश्रौ ७, १०, ११<sup>६</sup>; या ५, ४;  
६, ३<sup>६</sup>; -लान् काश्रौ ४, २, १२;  
आपश्रौ; -लान् कौस् ६९, १९;  
-लानाम् वौश्रौ २८, १३ : १७;  
-लानि काश्रौ २, ६, ३; आपश्रौ;  
-ले शाश्रौ ४, ४, २१; १७, १, ८;  
३, ६; आपश्रौ; -लेन भाश्रौ ५,  
१, २; वैश्रौ; -लेपु काश्रौ २, ७,  
१७; -लैः काश्रौ २, ६, ३९;  
आपश्रौ.

मौल<sup>०</sup> - लाः शंघ २५१.

मौलक- पा ४, २, ८०.

मौलिक- पा ५, १, ५०; -कम्  
विध ९१, १९<sup>१</sup>.

मौल्य<sup>१</sup> - ल्येन काश्रौ २२,  
८, १६.

मूल-क- पा ५, ४, ३; पाग २, ४,  
३१; -कम् वैध ३, ५, ८<sup>६</sup>.

मूल-कन्द-फल- -लानि वैश्रौ ११,  
११ : ८.

मूल-कर्मन्<sup>१</sup> -> ऋ(र्ध-अ)दिक्-  
-कम् अप ७, १, १२.

मूल-कारण- -णम् भाशि १.

मूल-कुण्ड- -ण्डम् कौग २, ४, २४.

मूल-कृच्छ्र<sup>३</sup> - -च्छ्रः विध ४६, १५<sup>६</sup>.

मूल-क्रिया<sup>१</sup> - -यासु विध २५, ७.

मूल-क्षीर<sup>२</sup> - -रात् अप ३६, ११, १.

मूल-गामिन्- -मी वैग १, १४ :  
१४.

मूल-तत्स (:) आपश्रौ १, ६, ७; ७,  
३, १; भाश्रौ.

मूलतः-पुष्कर<sup>०</sup> - -राणि वौश्रौ  
२०, १६ : ९.

मूल-दण्ड, ण्डा<sup>०</sup> - -ण्डः अप २३,  
२, ४; -ण्डा अप २३, ३, १;

-ण्डाः काश्रौ १, ३, ३८; भाश्रौ  
१, १६, ६.

मूलदण्डा (एड-अ)रत्नी- -त्नीम्  
भाग १, १ : ३<sup>०</sup>.

मूल-देश- -शे माश्रौ १, १, २, १६;  
२०; २, ५, २७; २, २, १, २६;  
कप्र १, २, ११.

१मूलपलाशकानि<sup>०</sup> भाश्रौ ६, १८,  
१५.

मूल-पाक- पाग ७, ३, ५३.

मूल-पूर्ण- -र्णम् अप २०, ३, ४.

मूल-फल- -लम् कौग ३, ९, ५०;  
शाग ४, ७, ५५; वाध ९, ४;

-लेन अप ५३, ३, ३; -लानि  
आपध १, १८, १; २, १६, २३;

हिध १, ५, ७१; २, ५, २३;  
-लेभ्यः आश्रौ १२, ८, ४०;

आपध २, १९, १०; हिध २,  
५, ८२; -लैः वौग २, ११, ५५;

वौपि ३, ६, ९; आपध १, २१,  
१; विध ८०, १; हिध १, ६,  
३०.

मूलफल-भक्ष- -क्षः काश्रौ २२,  
१, २५; -क्षौ आपश्रौ १७, २६,  
१५.

मूलफला(ल-आ)दि- -व्यञ्जन-  
-नानि आमिष्ट २, ६, ७ : ३०.

मूलफला(ल-अ)शन<sup>१</sup> - -नः वाध  
२७, ५.

मूलफला(ल-आ)शिन्- -शी  
वौध २, ६, १७; वैध १, ७, ३;

गौध ३, २६.

मूल-फल-पान- -नेभ्यः शंघ २१८.

मूल-फल-पुष्पौ (व्य-श्रौ)पध-मधु-  
मांस-तृणो(ण-इ)न्धन- -नानाम्  
गौध १०, २६.

मूल-फल-पुष्पो (प-श्रौ)पध-मधु-  
मांस-तृणो (ण-उ) दका (क-अ)  
पथ्य- -थ्यानि गौध ७, १२.

मूल-फल-भैक्ष<sup>६</sup> - -क्षेण वाध ९, ७.

मूल-फल-शाक- -केभ्यः वौध २,  
६, ५.

मूल-वर्ह(ण>)णी- -णी अअ १२,  
५(४)†.

मूल-भक्ष- -क्षः हिश्रौ १७, १, १३.

a) हस. > वस. ।

b) = क्षत्रियाद् ब्राह्मण्यां जात- ।

c) पाठः ? सपा. हिग २, २, ६ मूर्ध-

मूलोपधानायै इति पाठे. । d) वैप १ द्र. । e) सङ्ख् १मूल- इति [पक्ष] पागम. । f) तु. पागम. । g) पाठे.  
पृ १७९७ k द्र. । h) = स्थानीय-मूलनिवासिन्- । ततश्चागतेश्च भण् प्र. । i) तत्रभर्वायप् ठक् प्र. । j) भवार्थे  
न्यः प्र. उत्सं. (पावा ४, ३, ५८) । k) = शाक-विशेष- । l) = वशीकरण-क्रिया- (तु. मनुः [९, २९०]) ।  
m) = वत-विशेष- । n) अर्थः ? । o) वस. । p) ण्डामर<sup>०</sup> इति मूत्रो. । q) मूलफलशाकानि इति संस्कर्तुः  
टि. । r) उप. कर्त्तरि ह्त् । s) समाहारे हस. ।



मूलभक्ष-ता- -ता बौध ३, १०, १२.  
 मूल-भङ्ग- -ङ्गे अप १२, १, १२.  
 मूल-भार- (>मौलभारिक- पा.) पाग ५, १, ५०.  
 मूल-मध्या(घ्य-अ)ग्र- -आणि वैश्रौ १०, ८ : ३; वैगृ १, १४ : ३.  
 मूलमध्याग्र-देश- -शेषु कप्र १, ४, २.  
 मूल-वत्- -वत्सु अप ६५, १, ६.  
 मूल-विभुज- पावा, पावाग ३, २, ५.  
 मूल-शाखा-समन्वित- -तम् अप १२; १२ : १७; २५×४. ३६, २१, १.  
 मूल-पट्ट-भाग<sup>१</sup>- -ने अप २२, ४, ४.  
 मूल-स- पा ४, २, ८०.  
 मूल-स्तम्भ- -म्भाः अप २१, ५, २.  
 मूल-होम- -मः वैगृ १, १८ : १५; ३, १८ : ६; -मम् वैगृ २, ६ : मूलहोमा(म-अ)ङ्गहोम- -मौ वैगृ ३, ९ : १४.  
 १मूलहोमा(म-अ)न्त- -न्ते वैगृ ३, ४ : २; २३ : २.  
 २मूलहोमा(म-अ)न्त<sup>२</sup>- -न्तम् वैगृ २, १३ : ६.  
 मूला(ल-अ)ग्र- -आभ्याम् वैगृ १, १४ : २; -त्रे वैश्रौ ११, ११ : ४.  
 मूलाग्र-व(त >)ती- -तीम् काश्रौ १७, ४, १८.  
 मूला(ल-अ)धार-> -रा(र-अ)ना- हत-भ्रूमध्य- -ध्ये आसिगृ २, ४, १२ : १०.  
 मूला(ल-अ)शिन्- -शी विध २५,

११.  
 मूले-नाह<sup>३</sup>- -हम् वैश्रौ ११, ७ : ३.  
 मूलो(ल-उ)च्छेदन- -नात् काश्रौ २, ६, २.  
 मूल्य- पा ४, २, ८०; ८८; ४, ९१; -ल्यम् विध ५, ५१; १५३; १५७; ९, ४; -ल्यात् शंघ ३२४; विध ५, ८३; -ल्येन विध २९, २.  
 मूल्य-सम- -सम् विध ५, ८८.  
 २मूल<sup>४</sup>- -०ल अशां ४, २; -लम् अप १, १, २; २-३, १; ५, १; ७, ९; ४०, २; ३१, ८, ६; ५७, ३, १; अशां ४, २; १०, २; वेज्यो ३६; -लस्य अप १, ४, ५; अशां ६, ५; -लाय शांगृ १, २६, १७; वैगृ ३, २०, ८; अशां १२, ३; -ले अप १, १०, ५<sup>५</sup>; ३३, ९; -लेन अप १, २९, २; ४४, ७; ४९, ६; अशां १३, ३.  
 मूलाट<sup>६</sup>- (>टी- पा.) पाग ४, १, ४१.  
 मूलिक- (> मौलिक्य- पा.) पाग ५, १, १२८.  
 १मूलिपुरोडाश- -शेन निसृ २, ५ : २५.  
 मूलैर- पाठ १, ६१.  
 १मूप<sup>७</sup>- मूषः अप ४८, ११५; निघ ४, १; या ४, ६६.  
 मूप- पाग ४, १, ४५<sup>८</sup>.  
 मूषा- पाठभो २, ३, १५१; पा ४, १, ४५<sup>९</sup>.  
 मूपी- पा ४, १; ४५<sup>९</sup>; -व्याम् वागृ ४, २१<sup>९</sup>.  
 मूपका<sup>१०</sup>- > क-माज्जर-नकुल-मण्ड-

क-डुण्डुभा(भ-अ)जगर- -राणाम् विध ५०, ३१.  
 मूषक-स्थल- -ले वाध ६, १७.  
 १मूपकलाङ्ग<sup>११</sup>- -ङ्गम् हिध १, ५, २६.  
 मूपिक, का- पाठ २, ४२; पा, पाग ४, १, ४; पाग २, ४, ३१; -कम् अप ७०<sup>१२</sup>, ६, २; -काः अप १, ६, १; या ४, ६; -कैः शंघ ४३१<sup>१३</sup>.  
 १मूपिकलाङ्ग<sup>१४</sup>- -ङ्गम् आपध १, १६, २७.  
 मूपिका<sup>१५</sup>- (>मौषिकि- पा.) पाग ४, १, ९६.  
 मूपी-वत्- ✓मुष द्र.  
 ✓मृ<sup>१६</sup> पाधा. तुदा. आत्म. प्राणत्यागे, मरते<sup>१७</sup> या ११, ३८<sup>१८</sup>कृ.  
 मृणाति अप ४८, १९<sup>१९</sup>.  
 सुरीय या ७, ३<sup>१</sup>.  
 म्रियते काश्रौ २२, ६, ५; वौश्रौ; म्रियन्ते वैगृ ६७ : ९; मागृ २, १४, १७; अप ५५, २, २×४; १म्रियसे आपश्रौ ७, १६, ७; ९, १८, ८; ११; वौश्रौ; म्रियते काश्रौ २५, ९, ४; १३, २७; १४, १; आपश्रौ; वौषि ३, ९, १०.  
 १ममार वौश्रौ १४, ७ : ४; १८, ४८ : १६९; कौसू ८१, ३७; या १४, १८; मनुः आपश्रौ १, ८, ७<sup>२०</sup>; मरिष्यति आपश्रौ ९, २०, ७<sup>२१</sup>; वाधुश्रौ ४, ४ : ४; १५ : ५; ८० : ६×४; अप; मरिष्यसि आपमं २, १६, १४<sup>२२</sup>; गोगृ ४, ९, १५<sup>२३</sup>; वौध १, १०, ३३; अत्र ११, ३(२)<sup>२४</sup>;

- a) पस. > कस. । b) वस. । c) = नक्षत्र-विशेष- । d) ल्हेन इति संस्कर्तुः शोधः? (तु. प्रकरणम्) ।  
 e) < १मूल- + ✓अट् इति पागम. । f) वैप १ द्र. । g) तु. पागम. । h) घा. अर्थः? । i) = सुवर्णाद्यावर्तन- स्थान- वा आखु- वेति पागम. । j) = गर्त- । k) परस्परं पाभे. । = मूपक-पुरीष-, मूपकाङ्ग- इति भाष्यम् ।  
 l) दू. इति पाठः? यनि. शोधः (तु. शंघ [असृ. ४१८]) । m) व्यप. । n) पां १, ३, ६१ परामृष्टः द्र. ।  
 o) मृतायाम् इति B. ।

ङ्ङित्वा<sup>१</sup> आप्तं २, ३, ३१<sup>३</sup>; आण्ड  
 १, २०, ७, कौट २, ८, ९; काण्ड  
 ४६, १७<sup>२</sup>.  
 मात्वेति अर्षं ३: ५८<sup>१</sup>; या ११,  
 ६; मात्वेत् अत्र ६८, २, ५४.  
 नारदिष्यति वाधुश्रौ ३, ४६: ५.  
 नार्यते अत्र ७०<sup>२</sup>, १५, ४.  
 सुनूर्पेत् काश्रौ २२, ६, १९;  
 लाश्रौ ८, ८, ४०.  
 मर्- > मर्-सृ-पाण्ड २, १४०.  
 रमर्<sup>१</sup> > मर्-क-कः अत्र ५७,  
 १, ८; -के अत्र ६९, ४, १.  
 रमर्<sup>२</sup>-  
 मरण-गम् काश्रौ २५, ७, ५;  
 आम्रिण्ड; -णत्स काश्रौ २५, १३,  
 ३६; मीसू ११, ३, ३५, ४३; -गात्  
 वैश्रौ २०, २३: १; वाघ;  
 -णानि अत्र ६२, १, ४; २, ५;  
 -लाघ अत्र ७०<sup>३</sup>, ४, ४; -जे  
 आम्रिण्ड ३, ९, ३: २३; वौषि २,  
 ७, १९; ८, ७; वैण्ड; -जेणु सुघ  
 १०.  
 मरण-काम-ङ्ङित्वा<sup>१</sup> आप्तं २२,  
 ७, २१; हिश्रौ १७, ३, २०;  
 -मस्य शाश्रौ १५, १०, १; काश्रौ  
 २२, ६, १.  
 मरण-काल-के गौषि १, १, ८.  
 मरण-धर्मन्-मां या ३, १५.  
 मरण-प्रमृति-ति वैण्ड ७, ७: २.  
 मरण-संशय-ये आम्रिण्ड ३, ४,  
 १: १; वौषि ३, १, १८; हिषि  
 १: २.  
 मरणा(ण-आ)न्त<sup>१</sup>-न्तम् शाश्रौ  
 ४, १४, २; काश्रौ २५, ७, ९;  
 कौट ५, १, २; कप्र ३, ३, ८.

मरणा(ण-आ)शङ्क<sup>१</sup>-ङ्ङित्वा<sup>१</sup> आप्तं  
 ४, २: ३२.  
 मरणा(ण-आ)शौच-सध्य-ल्ये  
 विघ २२, ३८.  
 मरत-पाठ ३, ११०.  
 मरिष्यत्-प्यन्तम् वाधुश्रौ ३, १४:  
 ३: ७; १०.  
 मारण-गम् विघ ५६, ६०; -जे  
 आप्तं २, २८, ६<sup>१</sup>.  
 मारणा(ण-आ)दि-ङ्ङित्वा<sup>१</sup> आप्तं  
 २५, १, ११.  
 मारि(>)री<sup>१</sup>-रीम् अत्र ५०,  
 ५, १.  
 मारक-का: नाण्ड २, ११, २.  
 सुनूर्पेत्-पत: या ९, २६.  
 सुनूर्पुं-र्षु: वैण्ड ५, १: ४; -पौ:  
 वैण्ड ५, १: ८.  
 मृत, ता-त: आप्तं १४, २९,  
 १<sup>३</sup>; वौषि: -तम् शाश्रौ ३,  
 ५, ७; काश्रौ: -तस्य शाश्रौ १३,  
 २, ८; आप्तं: -ता काण्ड ४२:  
 १८; -ता: आम्रिण्ड ३, ५, ८:  
 ५<sup>१</sup>; वौषि १, ७: ७; २, १२,  
 २; वैण्ड ५, १५: ६; -तान् शाश्रौ  
 १३, ५, १२; जैश्रौका ८७;  
 -तानाम् वौषि २, ८, ३-५; ३,  
 ७, १; वैण्ड ५, ८: १३; -तान्  
 आप्तं १०, १८, ९; १९, ४;  
 वौषि १२, १४: ४<sup>१</sup>; वैण्ड ५, ९:  
 १०; ७, ३: ११; -तायाम्  
 काश्रौसं ३२: १५; काण्ड ३९:  
 २; कप्र ३, १, ८; ९; -तानु विघ  
 २२, ४३; -ते शाश्रौ १३, २, १;  
 ६; ७; ३, १; २९, १९; काश्रौ;  
 -तन काण्ड ४२: २०; -तेषु

विघ २२, ४३; -ङ्ङित्वा<sup>१</sup> आप्तं ४,  
 ४, ९; आम्रिण्ड ३, ७, १: १९;  
 वौषि १, १७: १७.  
 मृत-क-क: आम्रिण्ड २, ७,  
 ८: २५; वैण्ड ७, १: ४; -कम्  
 वैण्ड ५, २: १; १७; ३: १७;  
 २३; ७, २: ८; ३: २; -कस्य  
 वैण्ड ५, ३: १.  
 मृतक-निमित्त-त्व-त्वात्  
 वैण्ड ५, १३: ५.  
 मृतका(क-अ)र्ष-र्षम् वैष  
 ३, ९, १.  
 मृत-वैल-धारण<sup>१</sup>-गम् विघ  
 १६, १४.  
 मृत-जात-ते विघ २२, २६.  
 मृत-दार्-र: वैण्ड ५, ९: ६;  
 -रम् वैण्ड ७, २: ७.  
 मृत-पञ्चनख<sup>१</sup>-त्वात् विघ २३,  
 ४४; ५४, २.  
 मृत-विका<sup>१</sup>-काया: आम्रिण्ड  
 ३, ७, ४: १९.  
 मृत-पत्नीक<sup>१</sup>-क: आम्रिण्ड ३, ७,  
 ४: १७; वौषि २, ४, २; -कस्य  
 वौषि २, ४, १३.  
 मृतपत्नीकसमा(म-अ)  
 मि-मिभि: आम्रिण्ड ३, ७, ४:  
 २७.  
 मृत-प्र(ज>)जा<sup>१</sup>-जान् वौष  
 २, २, ५९.  
 मृत-प्रतिहृति-तिम् गौषि १,  
 ६, ५.  
 मृत-बलि-लिम् आम्रिण्ड ३,  
 ११, १: १.  
 मृत-दानधव-दानान् विघ  
 १९, २४.

a) सपा. शाण्ड २, १८, ३ मृषः इति पाठे. | b) = मरण- वा व्याधि- वा | c) इ १९०७ I द. |  
 दप्र मनि. संख्या-निर्देशः द. | d) सव. | e) सपा. हिष २, २, ६ हरणे इति पाठे. | f) = व्याधि-विरोध- |  
 g) स्वार्थे प्र. | h) श्वसे इति जी. |

मृत-भर्तृका<sup>a</sup>- कायाम् वैध ३,  
११,४.

मृत-भाव- वेन वाध २, ४९.

मृत-मत्स्य- -स्त्यान् अप ७१,  
१३,५.

मृत-व (त्स>)स्वा<sup>b</sup>- -त्सा अप  
६९, ५, १; -त्सायै वौश्रौ २४,  
३१ : ६.

मृत-शब्द- -द्दः आश्रौ ३, १३,  
११.

मृत-शिष्ट- -ष्टेभ्यः वृदे ७, ११.

मृत-संस्कार- -रः वौपि ३, १,  
४; वैगृ ७, १ : १; ३; -रेण  
वौपि ३, १, ४.

मृतसंस्कार-प्रायश्चित्त-

-त्तम् वैगृ ७, १ : १.

मृत-सूतक- -कयोः सुध २५.

मृतसूतका (क-अ)ञ-भोजन-

-ने काध २७७ : २.

मृता(त-अ)दर्शन- -नयोः काश्रौ  
२०, ३, २१.

मृता(त-आ)दि- -दीनाम् अप  
७०<sup>३</sup>, ७, ४.

मृता(त-अ)ह- -हे विध २१,  
११; २२, ५७.

मृता(त-अ)हन्- -हनि शंघ  
१९०.

मृता(त-आ)हिताग्न्या (मि-आ)  
वृत्- -वृत् काश्रौ २२, ६, १४.

मृति- -तिः आमिगृ ३, १०, २ : ११.

मृत्यु<sup>b</sup>- पाठ ३, २१; -त्यवः अत्र  
८, २१; -त्यवे शाश्रौ ४, ५, १३<sup>१</sup>;

आपश्रौ १९, १३, १५××; वौश्रौ;  
हिश्रौ २३, ३, ३२; कागृ ५४,

६; हिगृ २, १९, ६; कौगृ ७४,  
५; अप ५३, ५, १; विध ६७,

१०; -त्युः षंशाश्रौ ४, १६,  
५××; आपश्रौ; आमिगृ १, ५,

३ : ५<sup>१</sup>; अवभृ ३<sup>१</sup>; निघ ५,  
५<sup>१</sup>; या ७, ३<sup>१</sup>; ११, ६<sup>१</sup>; उनिस्  
८, ३९; आज्यो ५, १७; -त्युना

वौश्रौ ९, १८ : ९<sup>१</sup>; वाधुश्रौ  
३, ४६ : १७; ४, १०८ : २८;

हिश्रौ १०, ३, ९; १७, ७, २९;  
हिगृ; -षंत्युम-शाश्रौ ६, ३, २;

आपश्रौ; आपमं २, ३, १०;  
आमिगृ १, १, ३ : १०; हिगृ

१, ५, १०; -षंत्युन् आपश्रौ  
१६, १६, १<sup>२</sup>; वैश्रौ १८,  
१४ : ५<sup>२</sup>; हिगृ १, १९, ७<sup>०</sup>;

कौसू ९७.८; -षंत्यो काश्रौ  
२१, ४, ७; आपश्रौ; -त्योः

आश्रौ ३, ६, २७<sup>१</sup>; शाश्रौ;  
वौश्रौ १३, २३ : १; वाधुश्रौ ३,

३२ : २<sup>३</sup>; ४, ९५ : ८; १०;  
वैश्रौ १०, १ : ३; सुं १६, ५;

आमिगृ ३, ८, २ : ५४<sup>१</sup>; वौपि  
१, १७ : २०; २, ९, ८; अप

१९, १, १०; ५२, ३, ३××; ऋअ  
२, १०, ५९; वृदे ७, १०; चाअ<sup>६</sup>

३० : २७; ३८ : ७; ११; ३९;  
१५; -षंत्यौ हिश्रौ १४, ४, ३८;

वौध.

मार्त्यव<sup>d</sup>- -वम् अत्र ६,

१३<sup>१</sup>; -वाय कौसू ५६, १३<sup>१</sup>.  
मार्त्य<sup>f</sup>- -त्यः अप्रा ३, २,  
१२<sup>६</sup>.

मार्त्वी- -र्त्वी अत्र १०,  
६; -त्यः अत्र १२, २.

मृत्यु-काल- -ले वाध ६, ३.

मृत्यु-ग्रह<sup>h</sup>- -हः आपश्रौ १९,  
१३, १७; वौश्रौ; -हम् वौश्रौ  
१९, ५ : ११.

मृत्यु-जाति-प्राय- -ये मागृ ३,  
१४ : २२.

षंमृत्यु-जय<sup>m</sup>- -यम् वौध २, ५,  
२५.

मार्त्युजय<sup>n</sup>- -याय कौसू  
५६, १३.

मृत्यु-तस (ः) अप ६३, ३, ५.

मृत्यु-दायक- -काः अप ७१, ७,  
४.

१मृत्यु-देवता- > ल्य, त्या-  
-त्यम् वौश्रौ २४, ३६ : ४;

-त्याम् शुअ ४, ४७; ५२.

२मृत्यु-देव(त>)ता<sup>a</sup>- -ताः  
ऋअ २, १०, १८.

मृत्यु-नाशन<sup>o</sup>- -नम् शुअ १,  
६०७.

मृत्यु-धय<sup>p</sup>- -यम् वागृ १५,  
११.

षंमृत्यु-पाश- -शात् आपमं १;  
४, ७; आगृ.

मृत्यु-पीत- -तस्य वौश्रौ १९,  
५ : २२<sup>१</sup>.

मृत्यु-भय- -ये अप ३१, ८, १.

a) वस. । b) = मरण-, तदधिष्ठातृ-देवता-। वैप १ द. । c) परस्परं पाभे. । d) ल्यु<sup>o</sup> इति  
पाठः? यनि. शोधः (तु. प्रकरणम्) । e) सपा. मंत्रा १, ६, १४ मर्त्यम् इति पाभे. । f) पाठः? ल्यो  
इति शोधः (तु. तैआ ६; ७, २) । g) = ऋपि-विशेष- । h) साऽस्यदेवतीयस्तस्येदमीयश्च ऋ प्र. ।  
i) ल्यम् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. प. १) । j) = मार्त्यव-। यलोपः यणादेशश्च उंसं. (पा ६, ४, १७५) ।  
k) सपा. शौ ८, १३, ७ मार्त्यवः इति पाभे. । l) = ग्रह-विशेष-। m) = ह्र-। n) स्वार्थे ऋ प्र. ।  
o) उप. कर्तरि कृत् । p) उंस. उप. खश्च प्र. उंसं. (पावा ३, २, ३०) ।

मृत्युभय-प्रद- -दाः अप ६२,  
१,३.

मृत्यु-भीरु- -रवः उनिस् ८ :  
३३.

मृत्यु-मत्- -मान् वाधूश्रौ ४,  
८४ : १.

मृत्युमती<sup>३</sup>- -तीः वौश्रौ  
१९,१० : २१.

मृत्यु-लाङ्गल<sup>४</sup>- -लम् वौध ४,  
३, ७.

मृत्यु-लोक- -कम् अत्रमू ८.

मृत्यु-वत्- -वन्तम् वाधूश्रौ ३,  
४ : १; ४.

मृत्यु-विमोच(न>)नी- -नी  
ऋअ २, ७, ५९.

मृत्यु-शस्त्रा(त्र-अ)मि-तस्कर-  
-रैः अप ५२, १५, १.

मृत्यु-संयुत- -तः तैप्रा ६, ७<sup>५</sup>.

मृत्यु-सव<sup>०</sup>- -वः वौश्रौ २४,  
११ : २; -वेन वौश्रौ १८, १६ : १.

मृत्युसवा(व-अ)न्त- -न्ते  
वौश्रौ २३, १८ : २२.

मृत्यु-सूक्त- -क्तेन आम्रिण ३, ७,  
३ : २४; वौषि २, २, २; हिपि  
१९ : ११.

मृत्यु(त्यु-अ)न्तक- -कौ शश्रौ  
१४, २२, ४.

म्रियमाण- -णस्य हिपि २१ : ३<sup>५</sup>;  
-णान् विध २०, ३८; -णे  
आपश्रौ १६, १३, २; वीषि २, ६,  
१२.

मृ<sup>०</sup> वेजयो १८.

मृकण्ड, ण्डु [पाठभो १]- पाग ४, १,  
१२३; पाठभो २, १, ५३.

मार्कण्डेय- पा ४, १, १२३; -याः  
वौश्रौ ३ : १.

मृक- √मृच् द्र.

√मृक्ष् (वधा.)<sup>५</sup> पाधा. भ्वा. पर. संघाते;  
<sup>६</sup>चुरा. पर. म्रक्षणे म्लेच्छने संघाते  
च>मृक्ष<sup>६</sup>- -क्षः शाश्रौ १८,  
८, १५<sup>५</sup>.

मृक्षित- -तेषु काश्रौसं २८ : २.

√मृग्<sup>७</sup> पाधा. दिवा.<sup>६</sup> चुरा. आत्म.  
अन्वेषणे.

मृग(वप्रा.)<sup>१</sup>- -गः आश्रौ २, १०, १४<sup>५</sup>;  
शाश्रौ; आपश्रौ १३, ७, १६<sup>५</sup>;  
वैश्रौ १६, ८, ९<sup>५</sup>;<sup>१</sup> हिश्रौ १०, ५,  
१<sup>५</sup>;<sup>१</sup> अप ७०<sup>३</sup>, ६, ७; ७, २; वाध  
३, ११; शंघ ३७७ : १४; वौध  
१, १, ११; ऋक्या १, २०; ९,  
१९; १३, ३; पा ४, ३,  
५१; -गम् माश्रौ ५, २, १०,  
२४; वाधूश्रौ; ऋया ५, ३; ६,  
२४; -गस्य आपमं १, १३, ६<sup>५</sup>;  
आगृ; -गाः आपश्रौ १७, १८, १;  
अप; -गाणाम् अप १, ६, ६;  
७०<sup>२</sup>, २३, १०; विध ४८, ६<sup>५</sup>;  
या १४, १३<sup>५</sup>कृ; -गान् आपश्रौ  
२३, ११, १३; हिश्रौ १८, ४, १६;  
द्राश्रौ ५, ३, १६; लाश्रौ २, ७, १५;  
कौस् १२७, ५<sup>५</sup>; -ऋणेषु आपश्रौ  
१६, ३५, १; वैश्रौ १९, १ : ५;  
हिश्रौ ११, ८, २१; कौस् ११५,  
२; या १३, १९; -नैः आम्रिण  
२, ७, १० : १५; वौध ३, २, १६;  
३, २, ३.

मृगि- पावाग ६, ३, ४१.

मृगी-श्रीर- -रेण आपश्रौ

१७, ११, ३; वैश्रौ १९, ६ : ३५;<sup>५</sup>  
हिश्रौ १२, ३, ४.

२मार्ग<sup>६</sup>- -गम् लाश्रौ ८, २, ९;  
कागृ ५, ९; शंघ २२२; आपघ  
१, १८, १; हिघ १, ५, ७१;  
-गात् आपश्रौ ४, ३, ८; भाश्रौ  
४, ४, ६; हिश्रौ ६, १, ३७.

मार्ग-वासत्<sup>१</sup>- -साः वागृ  
६, ३; कागृ १, २; मागृ १,  
१, २.

मार्ग-वैयाघ्र-वास्त- -स्तानि  
विध २७, २०<sup>७</sup>.

मार्गिक- पा ४, ४, ३५.

मृग-क्षीर- पावा ६, ३, ४१.

मृग-म्रहण- -णे वाध २८, ८; वौध  
१, ५, ४९; विध २३, ४९.

मृग-चप(ल>)ला- पावाग ६, ३,  
४१<sup>७</sup>.

मृग-चार-> °रिक्- -काः वैध  
१, ८, १.

मृग-जीविन्-> °वि-श्ववृत्ति-  
-त्तिनाम् शंघ ४३४.

मृग-तीर्थ<sup>०</sup>- -र्थम् आश्रौ ५, ११, २;  
द्राश्रौ ५, २, २२; लाश्रौ २, ६,  
१५.

मृग-द्विज- -जैः अप ६३, २, ३.

मृग-पञ्चिन्- -क्षिगः अर ६२, १,  
४x४; -क्षिणाम् आम्रिण २, ७,  
७ : ४; अप; -क्षिभिः वौध ३,  
३, २१; -क्षितु अप ५०, ९, ६.

मृग-पद- पावाग ६, ३, १.

मृग-मय- -यः या ९, १९.

मृग-महिय-भाण्टक-वराह-शरभ-  
(म-ऋ)क्ष-सिंह-व्याघ्र-मण्डूक-

a) = ऋग्-विशेष- । b) = मन्त्र-विशेष- । c) = याग-विशेष- । d) = मृगशिरो-नक्षत्र- ।

e) = ऋषि-विशेष- । f) = √मृक् । g) वृ. BPG. । h) या ९, १९ परामृष्टः द्र. । i) वैप १ द्र. ।

j) पाठे. वैर १ वृग शी ३, ७, २ टि द्र. । k) विचारार्थे प्र. । l) वस. । m) °म्रवा° इति जीवं. । n) वृ-

पागम. । o) = [सवनान्ते] बहिःसर्षणमार्ग- ।

सूकर-मत्स्य-ग्राह-शिंशुमार-  
डुण्डुभा(भ-श्रा)दि- -दीनाम्  
काध २७१ : ९.  
मृग-मांस- -सैः अप १, २७, २.  
✓मृगय > मृगयु- पाठ १, ३७;  
-युः अप्रा ३, १, १४<sup>क</sup>; -युम्  
शुप्रा ५, २१<sup>क</sup>; -योः वाध १४,  
१४; १९; आपध १, १९, १४;  
हिध १, ५, ११६.  
मृग-योनि- -नयः विध ४४, ७.  
मृग-रमण- -णे पावा ६, ४, २४.  
मृग-लोमन्-> ऽमिक- -कानाम्  
विध २३, २४.  
मृग-वत्- -वान् अप ७१, १५, ७.  
मृग-वाचि-त्व- -त्वात् पावा ७, १,  
९६.  
मृग-व्याघ<sup>प</sup>- -घः अप ४३, ५, ९<sup>क</sup>;  
५२, ९, ५<sup>द</sup>; विध ४५, २३<sup>द</sup>;  
-घाय वैगृ ५, २ : २९<sup>द</sup>.  
मृग-शकुनि-गण- -णः अप ७०<sup>३</sup>,  
११, २६.  
मृग-शिर<sup>१</sup>- -रम् अप १, ४, १.  
मृग-शिरस्<sup>२</sup>- -शिरः कागृ १४,  
१०; वैगृ; -रसि आश्रौ २, १,  
१०; माश्रौ; -रसे वांगृ १,  
२६, ३; पागृ ३, २, ३; अशां  
१२, १.  
मृगशिरः-श्रविष्टो(छा-उ)त्तर-  
-राणि वांगृ १०, ४.  
मृग-शीर्ष<sup>३</sup>- -र्षम् हिश्रौ ३, २, ४;  
वौश्र १, १, २०; -र्षाय वैगृ ३,  
२० : ४; -र्षे आपश्रौ ५, ३, ६;  
माश्रौ ५, १, १०; -र्षेण वाधुश्रौ

२, १८ : ३.  
१मार्गशीर्ष-> षी<sup>४</sup>- -र्ष्याः  
आपगृ १९, २; हिगृ २, १६, १०;  
-र्ष्याम् हिश्रौ ५, ३, १; ४४;  
वैश्रौ; -र्ष्ये वौश्रौ १८, ११ : २;  
पागृ ३, २, ३.  
२मार्गशीर्ष<sup>५</sup>- -र्षे अप  
५५, ३, १; विध ३, ४०.  
मार्गशीर्ष-ज्येष्ठ-  
मास- -सयोः वैध १, ५, ५.  
मार्गशीर्ष-पौर्णमासी-  
-स्याम् आग्निगृ २, ५, ८ : १.  
मार्गशीर्ष-पौष-मा-  
घा(घ-अ)परपक्ष- -क्षेषु कौसू  
१४१, २४.  
मार्गशीर्ष-शुक्ल-  
पञ्च-दशी- -श्याम् विध  
९०, १.  
मार्गशीर्ष-शुक्लै-  
(क-ए)कादशी- -श्याम् विध  
४२, १.  
मृग-शृङ्ग- -ङ्गम् वैताश्रौ ११, २५.  
मृग-संयोग- -गे शुप्रा २, २५.  
मृग-हन्तृ- -न्तुः विध ५१, ६२<sup>१</sup>.  
मृगा(ग-आ)खर<sup>६</sup>- -रात् कौसू ३४,  
१४; -रे आपश्रौ २०, ७, १२;  
वौश्रौ १५, ८ : ११; २४, १० :  
१५; अप्राय ६, ७.  
मृगाखर-कुलाय-मृत्तिका->  
का-रोचना-नुगुल- -लाः मागृ  
२, १४, २३<sup>१</sup>.  
मृगा(ग-अ)र्थ- -र्थस्य अप ४६,  
१, ९; -र्थेषु अप ४६, १, १०.

मृ(ग>)गा-व(त् >)ती<sup>६</sup>- पाग  
६, ३, ११९.  
✓मृगि, मृगयन्ते या ५, ३१.  
मृगयत्- -यद्भयः कौसू १२७,  
५<sup>१</sup>.  
मृगया- -याम् आपश्रौ २३,  
११, १२; वौश्रौ; -यायाम् शंघ  
१७७.  
मृगया(या-अ)क्ष स्त्री-पाना-  
(न-अ)भिरति- -तिम् विध ३,  
५०<sup>१</sup>.  
मृगार<sup>७</sup>- -रः आग्निगृ २, ४, ५ : ८<sup>२</sup>;  
वौध ४, ७, ५; अख ४, २३<sup>३</sup>; -रैः  
कौसू २७, ३४.  
मृगार-संज्ञक- -कानि अश्र ४, २३.  
मृगार-सूक्त- -क्तानि कौसू ९, १;  
अप ३२, १, १८; २६.  
मृगारे(र-इ)ष्टि<sup>८</sup>- -ष्टिः वौश्रौ २८,  
१ : ३३; वैश्रौ २०, ३४ : ४;  
वौध ४, ६, २; -ष्टिम् आपश्रौ  
२०, २३, २; वाश्रौ; -ष्टेः माश्रौ  
५, २, ११, ४८; हिश्रौ १४, ५,  
१४; -ष्टया वैश्रौ २०, ३३ : ४.  
मृगारेष्टि-पशुपुरोडाश- -शानाम्  
वाश्रौ ३, ४, ५, २७.  
✓मृच्, मर्चयति शैशि ९२.  
मर्चयत्<sup>९</sup>- -र्चयता आपमं २, १, ७;  
आगृ १, १७, १६; भागृ २, १९ :  
६; हिगृ १, ९, १६.  
मृक्त-> ऽक्त-वाहस्<sup>१०</sup>- -हाः ऋअ  
२, ५, १८; साअ १, ८५.  
मृचय<sup>११</sup>- -यस्य आश्रौ ६, ५, १८<sup>१</sup>.  
मृचय-, मृच्छय- ✓मृद् द्र.

a) वैप १ द्र. । b) वप्रा. । उस. । c) = शिव- । d) = ऋपि-विशेष- । e) = लुच्यक- ।  
f) = नक्षत्र-विशेष- । g) = पौर्णमासी- । h) = मास-विशेष- । i) 'गंह' इति जीसं. । j) 'ना गु'  
इति वडोदासं. । k) तु. पागम. । = नदी-विशेष- । l) 'नेत्वभि' इति जीसं. । m) = मृगारेष्टिमन्त्रगण-  
(अग्नेर्मन्त्रे । तै ४, ७, १५, १) प्रमृ. । n) पृ ८ पृ द्र. । o) = याग-विशेष- । p) पाभे. वैप १, २५१६  
० द्र. । q) वैप २, ३खं. द्र. । r) पाभे. वैप २, ३खं. मृचयस्य ऐत्रा ४, १० टि. द्र. ।

√मृज्<sup>१</sup> पाषा. अदा. पर. जुद्धौ;  
 जुरा. उभ. शौचालंकरणयोः;  
 माष्टि वैश्रौ १२, ७ : १११;  
 आग्निष्ट; निघ २, १४<sup>१</sup>; मृजाते  
 वीश्रौ २६, ५ : १७; ऋमृजन्ति  
 आश्रौ ५, १२, १५; शाश्रौ ७,  
 १५, ७<sup>२</sup>; ऋप्रा ४, ८३; ऋमृज्महे  
 आपश्रौ ९, ३, २२; हिश्रौ १५,  
 १, ७१<sup>३</sup>; ऋमृज्द्वम् कौस्  
 ७१, १६; ८६, १९; अमृजत  
 वीश्रौ २४, २७ : २; मृज्यात्  
 जैश्रौका १००.  
 मिमाष्टि पाठ ३, ६, २.  
 ऋमामृजुः आपश्रौ १, ४, १५;  
 भाश्रौ; ऋमृज्चन्त ऋअ २, ९,  
 २६.  
 ऋमृज्यते वीश्रौ २८, २ : ४५,  
 मर्जयन्ति वैताश्रौ १०, १९;  
 ऋमर्जयन्त आश्रौ २, १६, ७;  
 शाश्रौ ३, १३, १७; या १२,  
 ४३<sup>४</sup>.  
 मर्जयते आपश्रौ ६, १४, ६;  
 ११, २, ३; १४, ९, ३; काठश्रौ;  
 मर्जयति वीश्रौ २, ८-९ : १८;  
 १० : ३०××; नाश्रौ; मर्जयेते  
 वीश्रौ १, २० : १७; ४, १० :  
 १८; भाश्रौ; मर्जयन्ते आश्रौ ३,  
 ५, १; शाश्रौ १, १२, ८;  
 काश्रौ; मर्जयन्ति वाश्रौ ३,  
 ४, १, २८; वैताश्रौ ८, २०;  
 मर्जयताम् आश्रौ १, ११, ७<sup>५</sup>;  
 ऋमर्जयन्ताम् आश्रौ १, ११, ७<sup>६</sup>;  
 शाश्रौ; मर्जयस्व वीश्रौ ६, १९ :  
 २५; मर्जयेत द्राश्रौ १५, १, १६;

लाश्रौ ५, ९, १४; जैश्र १, १३ :  
 १; मर्जयेत् आग्निष्ट १, ६, ३ :  
 २१; माष्ट २, २, २७<sup>७</sup>; मर्जयेरन्  
 द्राश्रौ १२, ३, ५; लाश्रौ ४, ११,  
 ७; जैश्र १, २१ : ३१.  
 मर्जयीत गौघ २६, १०; मर्ज-  
 यीरन् गौघ १४, ३६.  
 अमीमृजन्त वीश्रौ ५, १५ :  
 १६<sup>८</sup>.  
 मर्मृज्यते वीश्रौ १०, २ : १७××;  
 पावा ७, ४, ९१; ऋमर्मृज्यन्ते  
 आपश्रौ १८, १५, ३; हिश्रौ १३,  
 ६, ३९; मर्मृज्य पा ७, ४, ६५<sup>९</sup>.  
 ऋमर्मृजन्ते कौस् १२४, ४;  
 ऋमर्मृज्म > उमा ऋप्रा ७, ३३.  
 ऋमर्ज्यं- -ज्यं शाश्रौ ७, १५, ७.  
 मर्मृज्यमान, ना- ऋना आपश्रौ ४,  
 ५, १; भाश्रौ ४, ६, ४; हिश्रौ ६,  
 २, २; -नासः पावा ७, ४, ९१.  
 मार्यं- पा ३, १, ११३.  
 मर्जन्- -न्म् आश्रौ १, ८, २; २,  
 १९, १३; ३, ५, ३; ४, २, ६;  
 काश्रौ ४, २, ४०××; आपश्रौ;  
 -नात् आश्रौ १, १२, १७; शाश्रौ;  
 -नानि नाश्रौ ४, ३, ४३; -ने  
 वीश्रौ २३, १९ : २३; जैश्रौका  
 ८३.  
 मर्जनी- -नी वाश्रौ ३, २,  
 ५, ३२; द्राश्रौ ११, ३, १०; लाश्रौ  
 ४, ३, ११; -नी आपश्रौ ४,  
 १०, ८; भाश्रौ ४, १६, १; हिश्रौ  
 ६, ३, २.  
 मर्जन्-कर्मन्- -मणि जैश्रौका  
 १२२.

मर्जन्-प्रमृति- -तीनि हिश्रौ ८,  
 ७, ६१.  
 मर्जन्-मन्त्र- -न्त्रम् वैश्रौ १६,  
 २५ : ४.  
 मर्जन्-वेला- -लायाम् माश्रौ  
 ४, १, २०.  
 मर्जन्-सादन- -ने वैश्रौ १५,  
 १५ : ९.  
 मर्जना(न-२आ)घ- -घैः वैघ  
 ३, ४, ३.  
 ऋमर्जना(न-अ)न्त- -न्ते पाठ  
 ३, २, ५.  
 २मर्जना(न-अ)न्त'- -न्तम्  
 वैताश्रौ २४, ७.  
 मर्जनो(न-उ)पलेपना(न-अ)  
 प्लेक- -कैः वैघ ३, ४, ३.  
 मर्जनो(न-उ)पाञ्जन- -नैः विघ  
 २३, ५६.  
 मर्जयित्वा आश्रौ १, ८, १; १३,  
 २××; आपश्रौ.  
 मर्जित- -न्ते काश्रौ ६, ७, २९; ९, ७;  
 ९, १२, १; वाश्रौ १, १, ५, १६.  
 मृजा- पाग ३, ३, १०×<sup>१</sup>.  
 मृजान- -नः आश्रौ ५, १४, २४;  
 शाश्रौ १०, १३, ५६; -नाः काश्रौ  
 २२, ४, २६<sup>१</sup>; लाश्रौ ८, ६, २८;  
 कौस् ८४, १०.  
 मृज्य- पा ३, १, ११३.  
 मृज्यमान- -नः आश्रौ ५, १२,  
 १५<sup>१</sup>; -ने आश्रौ ५, १२, १७.  
 मृष्ट- -ष्टः शुभ १, ३४४<sup>१</sup>.  
 मृष्ट-लुब्धित- पाग २, २, ३१.  
 मृष्ट-व(त् >)ती- -तीः शाश्रौ  
 ७, १५, ७.

a) वा १, २०; १३, ३ पा ७, २, ११४ पावा १, १, ३; ६, १, १३ परानृष्टः द्र. । b) घा. गतौ घृतिः ।  
 c) च<sup>१</sup> इति पाठः ? यनि गौघः (तु. स्या. शौ १२, २, १३) । d) मर्जयते इति झ. । e) लिटि प्रपु १ रूपम्  
 इति पाठा. पानि. । f) वैघ १ द्र. । g) भाप., नाप. । h) विघ. (पुंल्लि.) । कर्तारि कृत् । i) बत्त. ।  
 j) ष्म- इति पाठः । k) पामे. वैघ १, २०७० h द्र. । l) = ऋग्विद्य- ।

मृष्टा(ष्ट-अ)क्षर-पद-स्वर<sup>३</sup>-रम्  
वैय ३, १९ : ५.

मृष्ट्वा आपश्चौ १२, २९, ९५x;  
वौश्चौ.

√मृड्, ळ ( वधा. )<sup>७०</sup> पाधा. तुदा.  
पर. सुखने; कथा. पर. क्षोदे  
सुखे च, ऋमृडाति आपमं २,  
१८, ४७; या १०, १५६; मृड-  
मृडातः<sup>d</sup> शुभ्रा ४, ३१; मृड-  
वात् अप्रा २, ४, १८; मृड-  
ताम् सु ३३, ३१; ऋमृड, > डा  
आश्चौ ३, ८, १; ८, १०, ३;  
शाश्चौ; ऋमृडतम् वैताश्चौ २९,  
१०; कौसु; ऋमृडत > ता  
आपश्चौ २, २०, ६; भाश्चौ.  
मृडयति शाय ६, ५, ६; ऋमृडयताम्<sup>e</sup> आपमं २, १७,  
१४; १९; ऋमृडयन्तु वाश्चौ ३,  
२, ५, २१; आपमं; या १०,  
१६६; ऋमृडय, > या आपश्चौ  
९, १, ११; भाश्चौ; मृडयत आपमं  
२, १७, २५.

ऋमृडित्-त्ता या १४, २८; -वारम्  
वौश्चौ २४, १३ : १०

मृड<sup>f</sup>-डः सु ९, ४; अप ५२, १०,  
१; -डाय आय ४, ८, १९<sup>g</sup>.

मृडानी- पा ४, १, ४९.

मृडक- पाठना ४, २५.

मृडङ्गण- पाठ ४, २४.

ऋमृडयत्<sup>h</sup>-यद्भ्याम् ऋप्रा ७,  
१९; -यन्तः ऋपा ८, ३४.

मृडित्वा वाधुश्चौ ४, ७४ : ९.

मृडीक<sup>i</sup>- पाठ ४, २४; -कः<sup>i</sup> ऋप्र  
२, ९, ९७; १०, १५०; -ऋकम्  
आपमं १, ४, १५; आमिष्ट १,  
५, ४ : ११; अप्राय ४, १.  
ऋमृडीक<sup>i</sup>- -कम् आपश्चौ ८,  
१४, २४.

मृडाकु<sup>j</sup>- (> मृडाकव- [ >  
वायन- ] पा. ) पाग ४, १,  
१०४; १००.

√मृण् पाधा. तुदा. पर. हिंसायाम्,  
मृणन्ति वौश्चौ १८, २१ : ५;  
ऋमृणः लाश्चौ ७, १०, १२;  
निम् ७, ११ : ८<sup>२</sup>.

मृणाल<sup>k</sup>- पाठ १, ११८<sup>k</sup>; पाग २,  
४, ३१; ५, २, १३५; ६, ३, १०८<sup>l</sup>.

मृणाल-कोमल- लौ विध १, २५.

मृणाल-पद्म-दूर्वा(र्वा-आ)भ-

कुमुदो( द-उ )ःपल-गन्ध-

सुच्<sup>m</sup>-सुक अप २४, २, ५.

मृणाल-पद्मा( द्म-अ )निल-

तुल्य-गन्ध-न्धे अप २४,  
५, २.

मृणाल-फलक- -कानि अप ६८,  
१, ३१.

मृणाल-वद्- -द्वाः अप ७०<sup>३</sup>, ११,  
२०.

मृणालि(त् >)नी- पा ५, २, १३५.

मृ(णि >)णी<sup>n</sup>- -प्यः अप ४८, १३०<sup>३</sup>.

√मृण्<sup>o</sup> पाधा. चुरा. पर. प्रेरणे.

मृण-मय- प्रमृ. √मृद् द्र.

ऋमृत- √मृ द्र.

ऋमृत- पाठ ३, ८८.

मृतक- प्रमृ, मृति- √मृ द्र.

मृत्खन- , मृत्तिका- प्रमृ. √मृद् द्र.

मृत्पु- प्रमृ. √मृ द्र.

मृत्सा- , मृत्सा- √मृद् द्र.

√मृद्, ऋद्<sup>p</sup> (वधा.)<sup>१</sup> पाधा. भ्वा.  
आत्म. मर्दने; कथा. पर. क्षोदे,  
मर्दति अप ७०<sup>३</sup>, ३, २<sup>२</sup>; निघ २,  
१४<sup>३</sup>.

मृदति अप ४८, ३८<sup>३</sup>.

मृदनाति माय २, १४, ४; अप  
४८, १९; मृदनीयात् माश्चौ  
२, १, ३, १६; १७.

मर्दयेत् आज्यो ३, २.

मर्दयिष्यति अप ४, १, १३<sup>३</sup>.

मर्द<sup>q</sup>-> 'र्द-कर्मन्- -र्मभ्यः अप.  
४५, २, १९.

मर्दित- -ताः अप ४, १, १३<sup>३</sup>.

मृद्<sup>r</sup>- पाग ४, ३, १४२; मृत् काश्चौ

१६, १, २०; वौश्चौ ९, ३ : २३;

४ : २५x; वाधुश्चौ; वौध

१, ६, ३६; विध २२, ८८; मृदः

आपश्चौ १५, ३, १०; १६, ५, ४;

वौश्चौ; मृदम् काश्चौ १६, २, २१;

आपश्चौ; आमिष्ट २, ६, ८ : ३<sup>५</sup>;

मृदा काश्चौ १६, ७, ९; आपश्चौ;

मृदि आपश्चौ १६, ४, ४; वौश्चौ;

मृदिः अप ४२, १, ६; शेष १०३;

१६२; विध २३, ४२; ६०, २४.

मृच्-चय- -यः या ६, ११<sup>४</sup>.

a) वस. > दस. । b) या १०, १५; १६ पा १, २, ७ परामृष्टः द्र. । c) वैप १ द्र. । d) वैप १,  
२५१८ द्र. । e) सपा. मै २, १३, २१ मृडताम् इति पाठे. । f) विप. > व्यप. । अर्थः ? । g) °दा इति  
पाठः ? यनि. शोधः ( तु. जीसं. old. MW. ) । h) = रुद्र- । i) व्यप. । j) = विस- । k) < √मृण् ।  
l) तु. पागम. । m) विप. ( अनल- ) । दस. > वस. > कस. > दस. > षस. > रस. । n) = सीमिक- । व्यु. ?  
< √मृण् [ हिंसायाम् ] ? । वन्नयः इति संस्कृतः शोधः ? । o) तु. BPG. । p) पा ७, ४, १५ परामृष्टः द्र. ।  
q) पा १, २, ७ परामृष्टः द्र. । r) धा. गतौ वृत्तिः । s) धा. सुखने वृत्तिः । t) माप. । u) -प्रकरणात्  
= मृल्लोष्ट- । v) उप. < √चि [ चयने ] ।

सृच्-छ (<श)च<sup>१</sup>- -यः आस्रियृ  
२,४,११:३.

सृच्-छि (<शि)छा-मय-  
-वेभ्यः वैध २,७,२.

सृण्<sup>१</sup>, न-मय- पा ४, ३, १४२;  
-यः वौश्रौ २६, २२: २०; अष  
२३, १, ४; ३३, ६, ६; -यम्  
काश्रौ १९, ३, १२<sup>१</sup>; २५, ५, २९;  
आपश्रौ; आस्रियृ २,४, ६: ७; ६,  
८: १; वैध २, ८, ३; -याच्  
आशि २, ९३; -यानाम् अष  
२१, २, १; वौध १, ६, ३३;  
विध २३, ३३; काध २७७: ९;  
-यानि आश्रौ ३, १४, १२;  
काश्रौ; -ये आपश्रौ १, ७, ९;  
पाण्ड; -येन आपश्रौ १, १४,  
४xx; वौश्रौ; वौषि २, ७, ५<sup>१</sup>.

सृन्मयी- -यी वैश्रौ ११,  
९: ७; कप्र २, ५, १२; -यी:  
आपश्रौ १६, १३, ६; माश्रौ;  
-यीम् शुभा ५, २०<sup>१</sup>.

सृण्मय-भाजन- -ने आस्रियृ  
३, ९, १: १७<sup>१</sup>.

सृण्मय-भोजन<sup>१</sup>- -ना: वौषि  
२, ६, ६<sup>१</sup>.

सृण्मया (य-अ) रमनयौ (य-  
औ) दुम्भर- -नाणि शंघ २१७.

सृन्मय-पात्र-> च-पतित-  
शिष्टाद्य-भोजिन्- -जी शंघ  
३७९.

सृन्मयपात्र-भोजिन्-  
-जिनः वैश्रौ २०, २३: ४.

सृन्मय-भोजन- -ना: द्विपि  
२२: १४<sup>१</sup>.

सृन्मय-वर्जित- -तम् गौषि  
२, ३, २१.

सृन्मया (य-अ) पान<sup>१</sup>- -तम्  
काश्रौ २२, १, ३०.

सृन्मया (य-अ) रममय-  
-यानाम् काश्रौ २५, ७, ३५.

सृत्-स्वत<sup>१</sup>- -तः आपश्रौ १५, १,  
९; भाश्रौ ११, १, १२; वैश्रौ १३,  
१: १२; द्विश्रौ २४, १, ६; -तम्  
आपश्रौ १५, १, १०<sup>२</sup>xx; भाश्रौ;  
-नात् आपश्रौ १६, २, ११;  
द्विश्रौ ११, १, २३; -ते आपश्रौ  
१५, १, १०; १६, ३, ७; भाश्रौ.

सृत् ति (क) का<sup>१</sup>- पा ५, ४,  
३९; -का शंघ ५३; ४५२; शुभा  
६, २६<sup>१</sup>; -का: वाध ६, १७;  
१८; शंघ ५३<sup>२</sup>; १०२; -काम्  
वैश्रौ १८, १: ५७; दाश्रौ; -<sup>१</sup>के  
आस्रियृ २, ६, १: २५; २७.

मात्तिका<sup>१</sup>- -कः वौश्रौ  
२३, १८: १०; -कम् नाश्रौ १,  
२, १, ९; १०; माण्ड २, १५, ५;  
अप्राय ६, ५; -कान् वाश्रौ ३,  
१, १, १४; -कानि वौश्रौ २२,  
२: २१; -के वाश्रौ ३, २, ५, २१;  
-केन माश्रौ १, २, १, ८.

सृत्तिका-स्नान- -तम् अष १,  
४४, १.

सृत्-तोय- -यै: विध २२, ७७;  
७८; ९१; ६४, १८; वैध ३, ३, २.  
सृत्-पात्र- -त्रम् वैगृ ५, ४: १५;  
-त्राणाम् लुध ३०; -त्रे वैगृ ७,  
६: ९; -त्रै: वैगृ ५, ७: १०.

सृत्पात्र-लोह- -हानाम् लुधप

८७: १३.

सृत्पात्र-विनियोग- -गे  
अप्राय ३, ८.

सृत्पात्र-संपुट- -टम् कप्र ३,  
४, १२.

सृत्-पिण्ड- -ण्डः वौश्रौ २६,  
२७: १३; शुभ २, ५८; -ण्डम्  
काश्रौ १६, २, २; आपश्रौ;  
-ण्डान् वौध २, ३, ७; वैध २,  
१४: १; -ण्डानाम् वैगृ ५, ३:  
१; -ण्डानि वैगृ ५, २: २३;  
-ण्डेन वैगृ ५, ३: १३.

सृत्-विण्ड<sup>१</sup>- -ण्डः याशि २,  
९१.

सृत्-प्रक्षेप- -पेण विध २३, ३८<sup>१</sup>.

सृत्- (स) सा- , सृत्- (स्न) >  
स्ना- पा ५, ४, ४०.

सृद्-नरिष्टके ( क-इ) ह्युद-दित्व-  
तण्डुल-सर्षपकल्क-हार-गोमूत्र-  
गोमया (य-आ) दि- -द्वीनि शंघ  
१६८.

सृद्-गोमय-जल- -लै: शंघ १६४.

सृद्-ग्रह (रा) जी<sup>१</sup>- -गीम् वैध  
२, ६, २; ३, ८, २.

सृद्-दि (ग्व) ग्धा- -ग्धा:  
काश्रौ १६, ५, २.

सृद्-द्वय- -यम् वाध ६, १८.

सृद्-भस्म-गोमूत्र-क्षारो ( र-ठ )  
दक- -कै: शंघ १७४.

सृद्-भस्म-मिश्रित- -तेन वौषि  
२, ८, ७.

सृद्-भाण्ड- -ण्डानाम् अष  
६४, ५, १.

सृद्-चारि- -रि विध २३, ३९.

a) उप. कर्तारि ह्यत् । b) अष ३३, ६, ६ आस्रियृ २, ४, ६: ७ प्रत्य. पाठः । c) सृन्मयम् इति शोषः

[इ. R.] । d) प स्वरं पाठे । e) वृत् । f) भोजिनः इति R. । g) वौसं. । उप. अ-पा<sup>१</sup> इति । h) = [सृन्मन-  
नौद-गुणै- । उप. अधिकारो प्र. । i) वैष १ द्र. । j) विकारार्थे प्र. । k) सृद्-क्षे<sup>१</sup> इति जीसं. । l) नाप. ।  
अप. अधिकारो ह्यत् ।



मृद्धारि-शुचि- -चिः विध  
२२,८९.  
१मृदु- पाठ १, २८; पाग २, १,  
७०; ५, १, १२२; २, ९७; -दवः  
अप ६८, १, ४०; -दु नाशि  
२, ७, ९; -दुः आपध १, ३, १७;  
५, ११; हिश्रीः नाशि १, ७, १३<sup>०</sup>,  
-दुम् शांश्री १७, ३, १६; याशि  
१, ६१; नाशि १, ६, १०<sup>०</sup>; -दूनि  
आज्यो १४, ६.  
मार्दव- पा ५, १, १२२;  
-वम् आपध १, २३, ६; हिध १,  
६, १४; तैप्रा २२, १०.  
†मृदु-क<sup>०</sup>- -कम् द्राश्री ११, २,  
९; लाश्री ४, २, ८.  
मृदु-कर्मन्- -र्मसु अशां १, ४;  
३, २; ५; ५, ६.  
मृदु-त्तर- -रः तैप्रा २०, ११;  
माशि ८, ३<sup>३</sup>; -रौ माशि ८, २.  
मृदु-ता- पा ५, १, १२२; -ता  
कौशि ४.  
मृदु-चृण- -णैः गोगृ ४, ७, ११;  
द्रागृ ४, २, ११.  
मृदु-त्व- पा ५, १, १२२; -त्वम्  
नाशि १, ७, १२; मीसू १०, ८,  
५१.  
मृदु-दाखण- -णाः अप ५२, १६,  
१.  
मृदु-ध्रुवो(व-उ)प्र-क्षिप्र- -प्रेषु  
अप ५२, १५, ३.  
मृदु-नादिन्- -दिना माशि ४,  
४.

मृदु-पद-वर्ण-स्वर-कुहरण-  
युक्त- -कम् नाशि १, ३, ९.  
मृदु-फलो(ल-उ)दय<sup>०</sup>- -याः  
अप ५८<sup>३</sup>, ४, १८.  
मृदु-मण्डल- -ले अप ६३, १, ८.  
मृदु-मध्यम- -मयोः नाशि १,  
७, ९.  
मृदु-मध्या(ध्या-आ)य (त >)  
ता<sup>०</sup>- -ताः नाशि १, ७, ११.  
मृदु-मन्द-दिवाकर<sup>०</sup>- -रः अप  
६३, २, ७.  
मृदु-ल- पा ५, २, ९७.  
मृदु-वाच्<sup>०</sup>- -वाचः या ६, ३१.  
मृदु-स्पर्श- -र्शम् माशि १६,  
१२; याशि २, १०६.  
मृदू(दु उ)दर<sup>०</sup>- -रः, -रेषु या  
६, ४.  
मृदू√भू >मृदू-भाव- ><sup>०</sup>व-  
कर्मन्<sup>०</sup>- -र्मणः या ५, १५.  
मृदू(दु-अ)ङ्ग<sup>०</sup>- -ङ्गाः अप ६८,  
१, १०.  
मृदू(दु-अ)वग्रह<sup>०</sup>- -हेण ऋप्रा  
१५, १६.  
अदिमन्- पा ५, १, १२२.  
अदिष्ट<sup>०</sup>- -ष्टाव आश्री ५, १७,  
५.  
अदीयस्- -यान् माश्री २, १,  
१, १९<sup>३</sup>.  
मृदू- √मृद् द.  
१मृदू<sup>०</sup>- -दान् वाधूश्री ४, ५९<sup>३</sup>: ७.  
२मृदू<sup>०</sup>- (>मार्द- [ ><sup>०</sup>र्दायन- ]  
पा. ) पाग<sup>१</sup> ४, १, १०४; १००.

मृदङ्ग<sup>१</sup>- पाठ १, १२१<sup>६</sup>; -ङ्गम् काय  
१७, २; -ङ्गाः अप ७०<sup>३</sup>, २, २;  
-ङ्गानाम् अप ६४, ४, २; -ङ्गेन  
पावा २, २, ३४.  
मृदुर- पाठ ५, ४१.  
मृदुरिष्ट<sup>०</sup> प्रमृ. √मृद् द.  
२मृदु<sup>०</sup> ( >मार्दव- [ ><sup>०</sup>वायन- ] )  
मार्दव<sup>१</sup>- ><sup>०</sup>य-पुर-पा ६, २, १०१.  
मृदुर<sup>०</sup>- -रः आपध १, १७, ३९; हिध  
१, ५, ७०.  
मृदुगो<sup>०</sup> प्रमृ. √मृद् द.  
?मृद्य माश्री १, ८, ५, ८.  
मृद्वीका<sup>०</sup>- पाउभो २, २, २०; -काम्  
शंध २२०.  
मृद्वीका-रस-माध्वीक<sup>०</sup>- -के विध  
२२, ८३<sup>१</sup>?  
√मृध्र(वधा.)पाधा. भ्वा. उभ. उन्दने,  
मृधाति आश्री २, १०, १६<sup>१</sup>;  
†मृध्र > धा<sup>०</sup> आश्री २, ९, १०;  
कौय ३, ५, २; शांय ३, ८, ५.  
मृध्रन्ति काश्री २२, ३, ४५.  
†मृध्रीः वीश्री १३, १४: ३;  
हिश्री २२, ४, ६; मृधः शांय २,  
१८, ३<sup>१</sup>?  
मृध- -द्वस्य हिद्य १, १५, ३<sup>१</sup>.  
†मृध<sup>०</sup>- मृधः आश्री २, १०,  
१४<sup>३</sup>; १८; १३, ८××; आपश्री.  
†मृध<sup>०</sup>- -ध्रम् वीश्री ७, ३: १६;  
-ध्रस्य आपमं २, २२, १<sup>१</sup>.  
†मृध्र-वाच्<sup>०</sup>- -वाचः या ६,  
३१<sup>१</sup>; उसू २, १६; -वाचम्  
उसू २, १७.

a) ण्डु इति लासं. । b) स्त्रार्थे कः प्र. । वा. क्वि. । c) कस. > वस. । d) ण्यु इति लासं ।  
e) वस. । f) तु. आन. । मृ इति BI. ? । g) स्वरूपम्? यव-पर्याय- इति वा यव- इति शोधो वेति संस्कर्ता ।  
h) व्यप. । i) तु. पाका. । २मृदु- इति भाण्डा. । j) = वाद्य-विशेष- । k) < √मृद् । l) अपत्ये ढकि (पा  
४, १, १२३) उकार-लोपः । m) = मकर- । n) = द्राक्षा- । o) वस. > दस. । p) मृदि इति पाठः? यनि.  
श्लोवः । q) पाभे. वैप २, ३४. जुपागः तैप्रा २, ५, ३, १ टि. द्र. । r) सपा. मंत्रा २, १, १४ (तु. आन. [आश्री.])  
मृया इति पाभे. । s) पाभे. पृ १९७६ अ द्र. । t) पाभे. पृ १४३ ० द्र. । u) वैप १ द्र. ।

सृन्-मय- प्रन्. √न्द् द.  
 √सृद् पाषा. लुदा. पर. आनशोने >  
 मरीचुग<sup>१</sup> - शन् अत्रा ३, ४, ११.  
 इन्द्राय<sup>२</sup> - न्त्य शश्रौ ९, २०,  
 २६.  
 √सृष् (नाडुषे) > २सृष्ट-ष्टन् विष  
 ६८, २६.  
 इमृष्टशान्तिकरण- गानि वाश्रौ  
 ३, ४, २, ४.  
 मृडा(ष्ट-अ)शन् - ने विष ९२,  
 १८.  
 मृष्टा(ष्ट-आ)शित् - शी विष  
 ४५, २७.  
 √सृष् पाषा. भ्वा. पर. सेवनसहनयोः  
 दिवा. लुदा. उभ. तितिक्षायाम्,  
 मृष कौसू ३, ७; १३७, ३९९.  
 नमर्ष दृष्टे ४, १३; ऋनीमृषः  
 द्राश्रौ ७, २, ७; लाश्रौ ३, २, ७;  
 काश्रु १, २३, २५.  
 मर्षग<sup>३</sup> - गः शंघ २४४.  
 मृष् - मृषा शश्रौ १६, १६, ३१;  
 आपश्रौ; सु ६, ४; अत्र २, १०,  
 १; वौष १, १०, २४; ३५; विष  
 १०, ९; या १, ५; पाग १, ४, ५७  
 मृषा-वादिन् - शी वाडुश्रौ ४,  
 १० : २४.  
 मृषो(पा-उ)र्ष - पा ३, १, ११४;  
 -ष्टन् आपष १, २३, ५; हिष  
 १, ६, १३.  
 र्मृष्ट- √न्द् द.  
 २मृष्ट- √चृ (नाडुषे) द.  
 मृष्ट्वा √न्द् द.  
 √मृ पाषा. क्वा. पर. हिजायाम्.

मे<sup>४</sup> पाषा. भ्वा. आत्. प्रणिदाने.  
 मे पाग १, ४, ५७.  
 मेकल<sup>५</sup> - पाठनो २, ३, ११७.  
 ?मेकलालयौ अत्र ५६, १, २.  
 मेक्षण- श्रित्वा √निष् द.  
 मेख(ल)ला<sup>६</sup> - पाठनो २, ३, ११७;  
 पाग ५, २, ११६; १३६; ६,  
 ३, १०८; -लया माश्रौ १०,  
 ६, १०; वैश्रौ १२, ८ : १२;  
 आश्रित् १, १, २: ३५; भाश्रु- ला  
 आपश्रौ १०, ९, १३; वैश्रौ; -लाः  
 वैश्रौ १, ३: ७; काश्रु १, १९,  
 १२; वौष १, २, १४; गौष;  
 -लान् काश्रौ ७, ३, २२;  
 आपश्रौ; पाश्रु २, २, ८; ६, ५५;  
 वैश्रु ६५ : ६; आश्रित् १, ३, ३ :  
 १; आपश्रु १०, ११; १२, ४; काश्रु  
 १, ६; ४१, ११; वौश्रु २, ५, १३;  
 ७०; ७२; भाश्रु १, २ : ६; २,  
 १९ : १०; नाश्रु १, १, २; २२, ७;  
 ८; २३, २७; वाश्रु ५, ७; ४२;  
 ६, ३; वैश्रु २, ५ : १३; हिश्रु १,  
 १, १७; ९, १०; गोश्रु ३, ४,  
 २२; कैश्रु १, १२ : ४४; १९ : ५;  
 द्राश्रु ३, १, २०; कौश्रु ५६, १;  
 ५७, १; विष २७, २९; वैष २, ७,  
 ७; -लायाः काश्रौ २६, १, १७;  
 आपश्रौ १३, १८, ७; कौश्रु ४७,  
 १७; -लायाम् वाडुश्रौ ३, १०१;  
 ३; वैश्रौ ३, ३ : ८; -ले वौश्रौ  
 ८, २० : १९; वैश्रौ; -ऋंके  
 आपश्रु २, २, १०; कौश्रु.  
 मैखल<sup>७</sup> - लन् लुश्रु १, २, ४९.

मैखला-क्षेत्र- -न् अत्र ३०<sup>१</sup>, १, ८.  
 मैखला-च्छेदन- ने आश्रित् २, ७,  
 ४ : ५.  
 मैखला-त्रय- -न् अत्र ३०<sup>१</sup>, १, ९.  
 मैखलात्रय-संयुत- तः काश्रु ७,  
 २२.  
 मैखला-दण्डा(ण्ड-अ) जिनो(न-उ)  
 पवीत-घारण- -गन् विष २८,  
 ८.  
 मैखला(ला-आ)दि- -दि काश्रौ ७,  
 ४, ५; ९; -दीन् वैष २, २, २१;  
 -दीनि वैश्रु २, १४ : ४<sup>१</sup>; अत्र  
 ३७, १६, १.  
 मैखला-देवताक- -कम् अत्र ६,  
 १३३.  
 मैखला-घारण- -गन् आश्रित् २,  
 ७, १ : ११.  
 मैखलाघारण-मैखलचयं-दण्डघा-  
 रण-सन्निदाधानो (न-उ) द्को-  
 पस्पर्शन-प्रावरभिवाद- -दाः  
 गोश्रु ३, १, २५५.  
 मैखलाघारण-मैखलचयं-दण्ड-  
 सन्निदाधानो (न-उ) पस्पर्शन-  
 प्रावरभिवाद- -दाः शश्रु २, ५,  
 १६५.  
 मैखला-यज्ञोपवीत- -न्त्य वौश्रु ४,  
 ११, १.  
 मैखला-चत्- पा ५, २, ११६; १३६;  
 -चन्तम् काश्रौ २६, १, १७.  
 मैखला-विन्- पावा ५, २, १२२;  
 -वी अत्रा ३, ४, ११.  
 मैखलिन्- पा ५, २, ११६; १३६;  
 -लिनः वौश्रु २, १, १२; शश्रु २,

a) पावा ३, १, ४४ परान्ठः द.। b) वैष १ द.। c) विष.। d) पामे. वैश्रु २, ३३. नृचवस्य  
 ऐवा ४, १० टि. द.। e) मि<sup>४</sup> इति कौश्रु.। f) पा १, २, २०; २५ परान्ठः द.। g) ४ १२६० ० द.।  
 h) कर्त्तरि लृट्.। i) तु. पाग.। j) उर. < √चृ.। k) √च, √स्त् इति BPG.। पा २, ३, ८०  
 परान्ठः द.। l) पा ८, ४, १७ परान्ठः द.। m) = पर्वत-विशेष-। n) तु. पाग.। o) शास्त्रदेवतायः अत्र  
 द.। p) परस्परं पामे.। q) परस्परं पामे.।

१, १४; -ली आमिष्ट १, १, ४ :  
४६; वैष्ट २, ८ : १२; हिष्ट १,  
८, १०; शंघ ३९०; वैध १, ३,  
५<sup>०</sup>; सुधप ८५ : ६.

मेखलो(ला-उ)पवीता (त-अ) जिन-  
दण्ड-धारणा(ण-आ) दि-ब्रह्म-  
चर्य-वर्जित<sup>०</sup>- त्तै वैष्ट ६, ९ :  
२.

मेखलो(ला-उ)पवीता(त-अ)जिन-  
दण्ड-धारिन्-री वैध १, २, १.

मेघ-प्रभृ. √मिष् द्र.

मेचक-पाउ ५, ३७.

मेडि<sup>०</sup>-डिः अप ४८, १०२; निघ  
१, ११; -डिम् साश्र १, ३२७<sup>०</sup>फ.

मेद्-प्रभृ. √मिष् द्र.

मेथ् √मिष् द्र.

मेथ<sup>०</sup>-(>१मेथी<sup>०</sup>-पा.) पाग ४, १,  
४१.

मेथत्, मेथन- √मिष् द्र.

रमेथि,थी<sup>०</sup>-थिपु वैश्री १४, ६ : ६;

-थी माश्री ११, ५, १३;

वाधूश्री; आपमं १, १, १०<sup>०</sup>फ;

काष्ट २५, ९<sup>०</sup>फ; -थीम् आपश्री

११, ७, ३; १५, ५, ११<sup>०</sup>xx;

वौश्री; -थ्यः<sup>०</sup> वौपि १, १४ :

४; १४; -थ्याः हिपि १४ : ६;

-थ्योः आश्री ४, ९, ६; वौश्री

२१, १४ : २७; माश्री २, २, २,

२५; -थ्यो माश्री २, २, २४.

मेथि-छा(<स्था)<sup>०</sup>-छाः भाशि  
५६<sup>०</sup>फ.

मेथि(,थि)त- √मिष् द्र.

√मेद्, १मेद- √मिद् द्र.

२मेद-(>मेदी-पा.) पाग ४, १,  
४१.

मेदस्-प्रभृ. √मिद् द्र.

√मेष्<sup>०</sup> पाधा.भ्ना.उभ.संगमे.

१मेघ,घा<sup>०</sup>- पाग ३, १, १३४<sup>०</sup>; -घः

आश्री ३, ४, १४<sup>०</sup>फ; शाश्री ७, ५,

२२<sup>०</sup>फ; आपश्री २, ११, ११<sup>०</sup>फ;

वौश्री १, १४ : ५<sup>०</sup>फ; भाश्री २,

१०, ४<sup>०</sup>फ; माश्री १, २, ६, २२<sup>०</sup>फ;

वाधूश्री ४, १९ : १२<sup>०</sup>फ; १४-१७;

१९<sup>०</sup>फ; २०; २२-२७; हिश्री १, ८,

२५<sup>०</sup>फ, आमिष्ट; -घम् आश्री ३, ३,

१<sup>०</sup>फ; शाश्री ५, १७, १; काश्री<sup>०</sup>

२५, १०, ९; १०; १४<sup>०</sup>फ;

आपश्री; -घाः वैताश्री ३८,

१५; आमिष्ट ३, ७, ४ : ३५;

वौपि २, ४, २०; -घान् शाश्री

६, १, ५; १६, १५, ८; वैताश्री

३८, १२; कौसू ६१, १३<sup>०</sup>फ;

-फघाय आपश्री २०, ३, ३;

४; वौश्री; -घायाम् आश्री ३, २,

१४<sup>०</sup>फ; -घे वृदे २, १५३; -घौ

शाश्री ६, १, ५.

मेघ-पति- -तये शाश्री ६, १, ५;

माश्री ५, २, ९, ३<sup>०</sup>फ; भाष्ट १, ४ :

११<sup>०</sup>फ; -तिभ्यः शाश्री ६, १,

५; माश्री ५, २, ९, ३; -तिभ्याम्

आश्री ३, ३, १<sup>०</sup>फ; शाश्री ५, १७,

१; माश्री ५, २, ९, ३; -ती

आश्री ३, २, १३<sup>०</sup>फ.

मेघपती- -तीभ्यः माश्री

५, २, ९, ३; -तीभ्याम् माश्री

५, २, ९, ३; -त्न्यै माश्री ५, २,

९, ३.

मेघपति-त्व- -त्वम् मीसू ९,

३, ३५.

मेघ-पति-सो(स-उ)चर<sup>०</sup>- रे भाशि

८८.

मेघ-स्रवण<sup>०</sup>- -णम् काश्री २५, १०,

७<sup>०</sup>.

२मेघ-(>१मेघी-पा.) पाग ४, १,

४१<sup>०</sup>फ.

३मेघ<sup>०</sup>- -घः सुख ३, २५२<sup>०</sup>फ.

मेघस्<sup>०</sup>- -घाः अप ४८, ८५<sup>०</sup>फ.

२मेघा<sup>०</sup>->मेघा<sup>०</sup>तिथि- -यिः ऋश्र

२, १, १२; ८, २<sup>०</sup>xx; वृदे;

-थिम् अप्रा ३, १, १७; -थेः

वृदे २, १५७; -फंथेः जैश्री ३,

१४; द्रश्री १, ३, ३; लाश्री १,

३, १; -थौ वृदे २, १३०; १५५;

ऋप्रा ४, ९०.

मैघातिथि<sup>०</sup>- -थः शाश्री ११,

७, २; वाधूश्री ४, ७५; १७; -यम्

शाश्री १६, ११, १६; लाश्री ७,

४, १; चुसू २, १५ : २८; निसू

७, २, ८; ७ : ३९; या ८, २२.

मैघातिथी- -थ्यः शाश्री

७, ८, ५; ११.७, ३.

मघातिथि-मेघातिथि- -थि

ऋश्र २, ८, १.

- a) तु. C. भाष्यम् । b) द्रस. > पस. > वस. > कस. > तृस. । c) वैप १ द्र. । d) अर्थः व्यु. च ? । < √मेथ् इति पागम. । e) शाक-मेद- इति पागम. । f) पाभे. वैप १, २५२२ ङ द्र. । g) सपा. आमिष्ट ३, ८, १४; १५ मेघ्यः इति पाभे. । h) √मिद् टि. अपि द्र. । i) वै १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र. । j) पृ १४५० C द्र. । k) ष इति पाठः ? यनि. शोधः ( तु. l टि. ) । l) वैप २, ३६. तत्रा ३, ७, ५, ३ टि. द्र. । m) = गर्भ-रस- । n) सर्वमेघम् इति कांसं. । o) = स्त्री-पशु- । p) स्तीम् इति आन. । q) द्रस. > वस. । r) पस. पूष. = गर्भरस- । s) ष्रा<sup>०</sup> इति चौस. ? । t) < √मेष् [संगमे] इति पागम. । u) = ऋषि-विशेष- । v) मेघाः इति भाष्यम् । w) = मेघाविन्- । x) विप. ( शास्त्र-, सूक्त-, सामन्- ) । वैप ४ तु-६७

३मेघा(वप्र.)<sup>a</sup>- पाग ३, १, २७; ३, १०४; ४, ३, ५४; ५, १, २; ६६; -<sup>क</sup>धया आश्रौ ४, ५, ६; शाश्रौ; -<sup>ख</sup> वाधूथी ४, २९; ५; आपमं २, ४, ६<sup>क</sup>; आमिष्ट; काग ४१, १८<sup>क</sup>; माग १, २२, ११<sup>क</sup>; वाग ५, ३०<sup>क</sup>; हिग १, ८, ४<sup>क</sup>; निघ २, १०<sup>क</sup>; या ३, १७; १९<sup>क</sup>; -<sup>घ</sup>:<sup>१</sup> वाग ८, २<sup>क</sup>; -<sup>ङ</sup>धाम आपश्रौ १३, ८, १०; वीश्रौ; काग ९, २<sup>क</sup>; माग १, ४, २<sup>क</sup>; शंघ ११६: ३०; -<sup>घ</sup>या: साश्र १, १७१; -<sup>घ</sup>याम् भाग २, ६: २<sup>क</sup>; -<sup>ङ</sup>धयै वीश्रौ ६, ४: १; वाधूश्रौ; -<sup>ङ</sup>धे कौसू १०, २०; ५७, २८; अश्र ६, १०८; अयं २: ६१.

मेघा-काम-<sup>स</sup>: काग ४१, ००; माग १, २२, १७; हिपि १७: ३; शुअ ३, १५२; -<sup>स</sup>म् वीग २, ५, ५; -<sup>स</sup>स्य वीश्रौ १४, १९: ४.

मेघा-कार<sup>०</sup>-<sup>र</sup>म् आश्रौ १६, ३५, ५; वाश्रौ २, १, ८, १६; हिश्रौ ११, ८, २३; जैग १, १४: ७; चाश्र ३९: १६.

मेघा-गुण-<sup>जै</sup>: याशि २, ११२; नाशि २, ८, २८.

मेघा-जनन<sup>०</sup>-<sup>न</sup>म् आग १, १५, २; २२, २०; २६; कौग १, १६, १७<sup>क</sup>; शाग १, २४, ९<sup>क</sup>; आमिष्ट २, १, ४: १<sup>क</sup>; भाग १, १०: ४<sup>क</sup>; हिग २, ३, ९<sup>क</sup>; गीग २, ७, १९; -<sup>न</sup>ानि

वैग ३, १५: ९<sup>क</sup>; कौसू १०, १; -<sup>ने</sup> भाग १, २७: २१; कौसू ५७, ३१.

मेघाजनना(न-आ)युग्य-<sup>ज्ये</sup> पाग १, १६, ३.

मेघा-तपस्- पाग २, ४, १४.

मेघा-देवता-><sup>ज्ये</sup>-<sup>त्यम्</sup> अश्र ६, १०८.

मेघा(घा-अ)धिक<sup>६</sup>-<sup>कम्</sup> शंघ १६.

मेघा-प्रद-<sup>दम्</sup> वैघ २, १२, ६.

√मेघाय पा ३, १, २७.

मेघा(घा-अ)र्थ-><sup>र्थिन्</sup>-<sup>र्थी</sup> वीघ ३, ६, १६<sup>१</sup>.

मेघा-वत्- पा ५, २, १२१.

मेघा-विन्- पा ५, २, १२१; पाग ५, १, १३३; -<sup>विन</sup>: अय ४८, ८५; आपघ २, २९, ५; हिघ; -<sup>विनम्</sup> कौसू ८९, ६; वाघ २, ९; विघ; -<sup>विनाम्</sup> निघ ३, १५; -<sup>विने</sup> या २, ३; -<sup>वी</sup> आपश्रौ ४, ५, ३<sup>क</sup>; भाश्रौ; विघ ४८, ११<sup>१</sup>; या ३, १९<sup>क</sup>.

मेघावक- पा ५, १, १३३.

मेघावि-नामन्-<sup>म</sup> या ९, ५; -<sup>मानि</sup> निघ ३, १५; या ३, १९.

मेघावि-शस्त-<sup>स्ता</sup>: या १२, ३३.

मेघा-सूक्त-<sup>क्तम्</sup> वृदे ८, ५८.

१मेघ्य- पा ४, ३, ५४; ५, १, २; ६६.

मेघा<sup>१</sup>-तिथि- प्रमृ. २मेघा-द्र.

मेघानर्त- पृ १४५० Cद्र.

मेघिर<sup>०</sup>- पावा ५, २, १०९; -<sup>र</sup>:

शाश्रौ ३, १८, १५; आपश्रौ ८, २०, ५.

१मेघी- २मेघ-द्र.

२मे(घि>)घी<sup>१</sup>-<sup>धी</sup>: -<sup>धी</sup>माश्रौ ५, २, ९, ३; -<sup>ध्य</sup>:<sup>६</sup> आमिष्ट ३, ८, १: ४; १५; -<sup>ध्यौ</sup> माश्रौ ५, २, ९, ३.

२मेघ्य, घ्या<sup>०</sup>-<sup>ध्य</sup>: शाश्रौ १५, १८, १<sup>६</sup>; आपश्रौ; अय ६, २, २<sup>१</sup>; ऋअ २, ८, ५३<sup>म</sup>; ५७<sup>म</sup>; साम १, २८२<sup>म</sup>; -<sup>ध्यम्</sup> शाश्रौ १६, ३, २७; ९, १३<sup>क</sup>; काश्रौ; आपश्रौ २०, ३, ३; -<sup>ध्यस्य</sup> वीश्रौ १५, ७: १; वृदे ४, २७ -<sup>ध्या</sup>: आश्रौ ३, ३, १<sup>क</sup>; शाश्रौ; -<sup>ध्यान्</sup> आपश्रौ २०, २५, १२; हिश्रौ १४, ६, २२; २३; भाशि ७५<sup>क</sup>; -<sup>ध्यानि</sup> वाघ २२, ११; वीघ ३, १०, १२; विघ; -<sup>ङ</sup>ध्याय आपश्रौ ५, ५, ८<sup>न</sup>; वीश्रौ २, १४: ६<sup>न</sup>; माश्रौ; वैश्रौ १, ५: १३<sup>न</sup>; हिश्रौ ३, २, ४४<sup>न</sup>; -<sup>ङ</sup>ध्यास: आपश्रौ १६, २९, १; वैश्रौ; -<sup>ङ</sup>ध्ये शाश्रौ १६, ११, २६; तैप्रा ४, ११; -<sup>ध्येन</sup> शाश्रौ १६, १८, ११; आपश्रौ; -<sup>ध्यौ</sup> वाघ १४, ४६.

मेघ्य-स्व-<sup>स्वाय</sup> वीश्रौ १४, १८: ३०; हिश्रौ १, २, ६१<sup>क</sup>.

मेघ्य-पादा-<sup>दान</sup> वाश्रौ १, ६, ४, १४.

मेघ्या(घ्य-अ)मेघ्य-विभाग- (घ>)ज्ञा-<sup>ज्ञे</sup> कौग २, ८

a) वैप १ द्र. 1 b) = घन- 1 c) ष्वा ङम् इत्यस्य स्थाने सपा. ऋ ८, ६, १० काग ९, २ प्रमृ. ष्याम् ऋत<sup>०</sup> इति पाभे. 1 d) विप. (सपिसु-), नाप. (मन्त्र-). उस. उप. करणे कृत्. 1 e) = संस्कार- विशेष- 1 पस. 1 f) = (मेघाजननोपयोगिन्-) पदार्थ- 1 g) वस. उप. = आधिक्य- 1 h) ष्वावी इति मैत्. 1 i) सप्र. मेघार्थी<>मेघावी इति पाभे. 1 j) = २मेघी- 1 k) पाभे. पृ १९८५ g द्र. 1 l) मध्यः इति पाठः! यनि. शोधः ( तु. मूको. ) 1 m) = ऋपि-विशेष- 1 n) पाभे. वैप १ वेद्यय ऋ ५, १५, १ टि. द्र. 1

४; शांत् २, १३, ५.  
 ३मे(ध्य)ध्या->मेध्या-तिथि<sup>a</sup>-  
 -थये ऋअ २, ८, १; -थि: ऋअ  
 २, ८, ३; ३३; अअ.  
 मेध्यातिथि-प्रियमेध- -धौ अअ  
 २०, १८.  
 १मेन(क)का<sup>b</sup>- पाठभो २, २, ७;  
 पावा ६, ४, १२०; पागम ६१.  
 २मेनका<sup>c</sup>->मैनाक<sup>d</sup>- -कम् अप  
 ५६, १, ९.  
 ३मेना(वप्रा.)<sup>e</sup>- -फा न अप ४८, ८६<sup>३</sup>;  
 निघ १, ११<sup>०</sup>; ३, २९; -ना:  
 या ३, २१६; -फा<sup>०</sup>ने जैश्री ३:  
 १५; द्राश्री १, ३, ३; ७<sup>f</sup>; लाश्री  
 १, ३, १.  
 मेने-वृवाण- -णयो: लाश्री १, ३, ७<sup>f</sup>.  
 ३मेनि- √मि, मी (वधा.) द्र.  
 √मेप् पाधा. भ्वा. आत्म. गतो.  
 ३मेया- √मा (वधा.) द्र.  
 ३मेरु<sup>g</sup>- पाठ ४, १०१; -रुम् शंघ  
 ११६ : ८; -फा<sup>०</sup>रो: वैश्र ५, २:  
 १६; २०; -शौ आमिष्ट २, ४,  
 १० : ३८.  
 मेरु-दुहित्, -मेरु-पुत्री- पावा ६,  
 ३, ७०.  
 मेरु-मात्र<sup>h</sup>- -त्रम् सु १४, २.  
 √मेव पाधा. भ्वा. आत्म. सेवने.  
 १मेप- √मिप् द्र.  
 २मेप<sup>i</sup>- -फा<sup>०</sup> अपाश्री २, १८, २;  
 वीश्री; -प: आश्री ३, ४, १०;  
 काश्री; या ३, १६१<sup>f</sup>; -पम्  
 फा<sup>०</sup>आश्री ६, ४, १०; ८, ६, ६; १२;  
 शाश्री; -पस्य हिश्री ५, २,  
 २७; -पा: आपश्री १९, ३, २१;

-फाणाम् आपश्री २०, १९, ५<sup>३</sup>;  
 काश्रीसं २६ : ५; वाश्री; -वान्  
 या ५, २१<sup>f</sup>; -पाय वीश्री  
 ५, १६ : १४<sup>f</sup>; वैश्री ८, १० :  
 ५; द्राश्री; -वे जैश्री २५ : ७;  
 द्राश्री २, २, ५०; लाश्री १, ६,  
 ४७; -वौ काश्री ५, ५, १६;  
 आपश्री.  
 मेषी- -षी आश्री ५, ३, ३; शाश्री;  
 ऋप्रा १६, १२<sup>f</sup><sup>h</sup>; -षीणाम्  
 काश्रीसं २६ : ५; -षीम् आपश्री  
 ८, ५, ४३<sup>x</sup>; काश्रीसं; -ष्य:  
 वीश्री २४, ११ : ८; -ष्या: माश्री  
 १, ७, ४, ३; -ष्यै वीश्री ५,  
 १६ : १४<sup>f</sup>; वैश्री.  
 मेष्य (षी-अ) थं- -थान्  
 आपश्री ८, ५, ३८.  
 मेष-प्रतिकृति- -तिभ्याम् भाश्री ८,  
 ५, ९; १४; -ती आपश्री ८, ५,  
 ४२; ६, ११; १६; भाश्री.  
 मेष-मिथुन- -नम् काश्री ५, ३, ६;  
 ५, २.  
 मेष-वध- -धे काध २७२ : २.  
 मेषा(ष-अ)ज-वध- -धे विध ५०,  
 २८.  
 मेषा(ष-अ)थं- -थान् आपश्री ८, ५,  
 ३८.  
 मेषत्- पाठना १, १२४.  
 मेष्क<sup>i</sup>->मेष्क-ह(त)ता- -ताम्  
 आपश्री १०, १९, १; भाश्री १०,  
 १२, ९; हिश्री १०, ३, ९.  
 मेह-, मेहन- √मिष् द्र.  
 फा<sup>०</sup>मेहना<sup>j</sup>- -ना आश्री ७, ८, ३<sup>f</sup>; शाश्री  
 ११, ११, १५<sup>f</sup>; १८, १८, ८<sup>f</sup>;

अप ४८, ११५; नघ ४, १;  
 या ४, ४६<sup>f</sup>!  
 मेहमान- √मिष् द्र.  
 मैतायन- रमित- द्र.  
 १मैत्र- मित्र- द्र.  
 २मैत्र- मित्री- द्र.  
 मैत्रक- मित्र- द्र.  
 मैत्रवर्धक-, ध्रंक- मित्रवर्ध- द्र.  
 मैत्रानुवाकिक-, मैत्रावाहंस्पत्य-,  
 मैत्रायण-, णक- प्रमृ., मैत्रा-  
 वरुग-, णि-, णी-, णीय-,  
 मैत्री- मित्र- द्र.  
 मैत्रेय-, ष्यायण-, ष्रेयिका-, ष्रेयी-  
 मित्रयु- द्र.  
 मैथुन- प्रमृ. √मिष् द्र.  
 मैधातिथ- रमेधा- द्र.  
 मैधावक- रमेधा- द्र.  
 मैनाक- रमेनका- द्र.  
 मैनिक- मीन- द्र.  
 मैमत-, ष्तायन- प्रमृ. मिमत- द्र.  
 मैरेय<sup>k</sup>- पा ६, २, ७०; -यम् विघ  
 २२, ८३.  
 मैरेय-पान- -नम् माश्र २, १४, २८.  
 मैल<sup>l</sup>- -लम् अप ४६, ८, ३.  
 मैलो(ल-उ)त्तर<sup>m</sup>- -रम् अप ४६, ८,  
 ३.  
 मैलिक्य- मिलिक- द्र.  
 मैश्रधान्य- √मिष् द्र.  
 मो मा द्र.  
 फा<sup>०</sup>मोकी<sup>n</sup>- -की अप ४८, ७४; निघ :  
 १, ७.  
 ?मोक्तः अप ४८, ७०<sup>f</sup><sup>mm</sup>.  
 मोक्तइय-, मोक्ष- प्रमृ. √सुच् द्र.  
 मोघ<sup>n</sup>- -घम् वीश्री १८, ४५ : २०;

a) वैप १, २५२५ d e द्र. । b) वैप १ द्र. । c) अर्थः व्यु. च ? । d) = पर्वत-विशेष- ।  
 e) = वाच्- । f) सपा. मेने वृवाण <> मेनेवृवाणयोः इति पाभे. । g) विप. (हस्तितन-) । h) पाठः १  
 सपा. खि ४, ९, ४ मुहिपी इति (तु. संस्कृतुः-टि.) । i) = हिंल-पशु- । j) पाभे. वैप १, २५२६ h द्र. । k) = सुरा-  
 विशेध- । l) = व्रत-विशेष- । m) पुरातन-नामन्- । n) वैप १ निर्दिष्टानां समावेशः द्र. ।

मागृ २, १७, ११; कौगृ ३, १०,  
३०; श्रागृ २, १४, २६; कप्र  
१, ३, २; वाघ १७, ८; ९; १;  
श्रापघ २, १३, ६; ऋषीघ २, २,  
३६; ७, १६; हिघ २, ३, ६; १;  
वृदे १, ४९; भाशि ३८.

मौञ्ज- प्रमृ. १मुञ्ज- द्र.  
मौखकि- मुञ्जक- द्र.  
मौजायन- प्रमृ. २मुञ्ज- द्र.  
मौखिगन्ध<sup>d</sup>- न्धा: वौश्रौप्र २१: २.  
मौखिन्- १मुञ्ज- द्र.  
मौजिमौखि<sup>d</sup>- अजय: वौश्रौप्र २१:  
१.

मौषिकि- मूषिका- द्र.  
मौषीतकि<sup>d</sup>- कि: वौश्रौप्र २६: ३-  
४१: ४.

१मौसल- १मुसल- द्र.  
२मौसल-, \*सलि- २मुसल- द्र.  
१मौसली- १मुसल- द्र.  
२मौसली-, मौसल्य- २मुसल- द्र.

मौस्त- मुस्ता- द्र.  
मौहूर्त- मुहूर्त- द्र.

√मृता पाषा. भ्वा. पर. अभ्यासे.  
१√म्यक्ष्, म्यक्षति निघ २, १४<sup>d</sup>.

अम्यक् अत्र ४८, ११५; निघ:  
४, ३; या १, १५; ६, १५<sup>g</sup>.

√म्रक्ष् पाषा. भ्वा. पर. सङ्घाते; तुरा. पर.  
म्लेच्छने.

√म्रद्, म्रदिमन्- प्रमृ. √मृद् द्र.  
१म्रागैक्ष-वेणि<sup>d</sup>- णि: अत्र २४, ६, ३.

त्रियमाण- √मृ द्र.

√मृच्, ज्च्<sup>d</sup> पाषा. भ्वा. पर. गतौ.  
त्रोक<sup>d</sup>- क: अत्र १६, ११.

√म्रेह पाषा. भ्वा. पर. उन्मादे.  
म्लानि- √म्लै द्र.

√\*म्लिच्छ, म्लेच्छ पाषा. भ्वा. तुरा.  
पर. अव्यक्ते शब्दे.

म्लिष्ट- पा ७, २, १८.

म्लेच्छ- पाग ६, १, १६०; -च्छ:  
वौश्रौ २, ५: १८<sup>१</sup>; -च्छान् अत्र  
५०, २, ५.

म्लेच्छ-देश- -श: विघ ८४,  
४; -शम्, -शे शीघ १२१.

म्लेच्छ-भाषा- -याम् वाघ ६,  
४१.

मौचन-, \*चयितुम् प्रमृ. √मुच् द्र.

मौद-, मौदक-, १मौदन- √मुद् द्र.

२मौदन<sup>a</sup>- पाग ४, २, १५<sup>b</sup>; ११६.

मौदनिक् > ङ्का-, \*की- पा ४,  
२, ११६.

मौदनेयक- पा ४, २, १५.

१मौदमान- √मुद् द्र.

२मौदमान<sup>a</sup>- (>मौदमानिक > ङ्का-  
\*की- पा.) पाग ४, २,  
११६<sup>c</sup>.

१मोमुहु: सु १४, ३.

मोपण-, मोप्य- √मुप् द्र.

मोह-, मोहन- √मुह द्र.

१मोहम<sup>d</sup>- -माय कागृ ४, २०<sup>e</sup>; गौघ  
२६, १२.

मोहमान<sup>d</sup>- (>मौहमानिक > ङ्का-  
\*की-)

मोहयित्वा प्रमृ. √मुह द्र.

मौकुलि- पाठभो २, १, २३३.

मौक्तिक- मुक्ता- द्र.

मौक्य- १मूज- द्र.

मौक्ष- √मुत् द्र.

मौचिक्य- मूचिक- द्र.

मौचुकर्णिक- मुचुर्ण- द्र.

मौजवत्- २मूजवत्- द्र.

मौजवत- मूज- द्र.

मौखी- १मुञ्ज- द्र.

मौञ्ज्य<sup>d</sup>- -ञ्याय गौघ २६, १२.

मौढ्य- २मूड- द्र.

मौण्ड्य- √मुण्ड द्र.

मौद<sup>d</sup>- द: अत्र २, ५, २; -देन अत्र  
२२, २, ४.

मौद-पैप्यलाद- पाग ६, २, ३७.

मौदायन- ना: अत्र २३, १०, ५.

मौद्र- मुद्र- द्र.

मौद्रल- प्रमृ. मुद्रल- द्र.

मौद्रल्याकर- (>श्रीय- पा.) पाग  
४, २, ८०.

१-२मौन- प्रमृ. मुनि- द्र.

मौर्ख्य- मूर्ख- द्र.

मौर्य- मुर- द्र.

मौ(र्व >) वी<sup>d</sup>- वीं पागृ २, ५, २३; वैगृ  
२, ४: ३; -वींम् कागृ ४१, १२;  
भागृ १, २: ६; वागृ ५, ७; जैगृ  
१, १२: ४८; कौसू ५७, २.

मौल- \*लक-, \*लभारिक- १मूल- द्र.

मौलि- पाठभो २, १, २३३.

मौली(ल-इ)न्तु- पाग २, २, ३७.

मौलिक- १मूल- द्र.

मौलिक्य- मूलिक- द्र.

मौल्य- १मूल- द्र.

a) = नगर-, ग्राम- वेति पागम. । b) पौदन- इति पागम., सोदन- इति वामन: (तु. पागम.) ।  
c) मोहमान- इति पाका. । d) व्यप. । e) = ऋषि-विशेष-, तत्प्रोक्तशाखाध्यायिन्- । व्यु.? <मौद-  
इति P.W.. <मुद्- इति M.W. । f) विप. (मेखला-) । व्यु.? <मूर्वा- इति शक., अमा., आदित्यनारायण:  
(कागृ.), M.W.; <मूर्व- इति देवपाल: (कागृ.), <मुर- इति पागृ. भाष्यद्वयतः । g) मियक्षति इति  
चणुशास्त्रीयः पाठः । h) विप. (अवनि-) । यम. पृ. ? (तु. संस्कृतं: टि.) । i) पा ३, १, ५८ परामृष्टः  
द्र. । j) वै १ द्र. ।

म्लेच्छ-वत् - वान् अप १, ६, १.  
म्लेच्छ-विषय<sup>१</sup> - यम् विध ८४,  
२; -ये विध ८४, १.  
म्लेच्छा (च्छ-अ)न्त्यज- जान्  
विध ७१, ५९.  
म्लेच्छा(च्छ-अ)न्त्यज-पतित-  
-तैः विध ६४, १५.  
म्लेच्छा(च्छ-अ)शुच्य(चि-अ)  
धार्मिक- -कैः गौघ २, १७.

म्लिष्ट- ✓म्लिच्छ द्र.

✓म्लुच्, ङच् पाधा. भ्वा. पर. गतौ.

✓म्लेच्छ प्रभृ. ✓म्लिच्छ द्र.

✓म्लेद् पाधा. भ्वा. पर. उन्मादे.

✓म्लेव् पाधा. भ्वा. आत्म. सेवने.

✓म्लै पाधा. भ्वा. पर. हर्षक्षये,

म्लायते अप ६४, ७, १०.

म्लानि- पाठवृ ४, ५१.

य

यू<sup>१</sup> -> य्-अच्-पर- -रः पा ८, ३, ८७.

य्-वदय<sup>२</sup> - -यः शुप्रा ३, ६६.

य्-व- -वाभ्याम् पा ७, ३, ३.

य्व-कार- -रम् ऋप्रा १४, ४८.

१य<sup>३</sup> - यः याशि २, ५२<sup>३</sup>; यम् ऋत

३, ६, ७; यस्य पा ६, ४, ४९;

यात् अप्रा १, ३, १४.

य-कार- -रः अप ३४, १, २; ऋप्रा;

-रम् ऋप्रा १४, ४१; ४७;

शुप्रा; -रात् ऋप्रा १४, ५२;

-रे ऋप्रा ७, ४१; ९, १३x४;

शुप्रा; -रेण शैशि ३२७.

यकार-प्रतिषेध- -घः पावा ६,

१, १६.

यकार-रेफ- -फौ शैशि ११९.

यकार-लोप- -पः शुप्रा ४, १३०;

अप्रा २, १, ८; ९.

यकार-वकार-विकर्ष- -षेण

उनिस् २ : ९.

यकार-स्पर्श-संहित- -त्तम् ऋप्रा

५, ४७.

यकारा(र-अ)कार- -रयोः शुप्रा

४, ४१.

यकारा(र-आ)दि- -दयः उस्

१, ४; -दि ऋप्रा २, ३५;

-दिम् या १, १३; -दौ अप्रा

३, १, ७; १४; शौच ३, १८.

यकारा(र-अ)न्त<sup>४</sup>- -न्तः अप्रा

३, २, १२; २१.

य-र-ल-व- -वाः याशि २, ७३; ९४.

य-र-वो(व-रु)प्मन्- -प्मसु माशि

९, ७.

य-र-वोष्मो(ष्म-उ)दय<sup>५</sup>- -याः

ऋप्रा ६, २३.

य-रो(र-रु)ष्मा(ष्म-आ)पत्ति- -त्तौ

शौच १, ६८.

य-ल-व- -वेषु नाशि २, ४, ४.

य-लोप- -पे पावा ६, ४, ४९.

यलोप-प्रतिषेध- -घः पावा १,

१, ५७.

यलोप-वचन- -नम् पावा १, १,

५७; ४, १, ७८; ६, ४, १७४;

-नात् पावा ५, २, १२<sup>३</sup>.

०य-लोप<sup>६</sup> पावा ६, ४, २२.

०यलोप-स्वर-सवर्णा (री-अ) नु-

स्वार-दीर्घ<sup>७</sup> पा १, १, ५८.

१य-व- -वम् माशि ७, ७; -वयोः

शुप्रा ४, १२७; शौच २, २१;

-वाभ्याम् उनिस् २ : ९; -वौ

शुप्रा १, ११५; माशि ७, ६; याशि.

यव-कार- -रे शैशि ८२; -रौ

तैप्रा १०, १५; १९; शैशि ८४.

यवकार-पर<sup>८</sup>- -रः तैप्रा १३,

३; -रौ तैप्रा १४, २१.

यवकार-भाव- -वे तैप्रा २०, १.

यव-भाव- -वः कौशि १२.

यव-लोप- -पे शौच ३, ३५.

यवा(व-अ)न्त<sup>९</sup>- -न्तात् शौच

३, ५७.

य-वचन- -नम् पावा २, ४, ५४.

य-व-न-ह-पर- -रः तैप्रा १२, ४.

य-व-ल- -लाः माशि ११, ९; पावा

८, ३, २६.

यव-ल-पर<sup>१०</sup>- -रे पावा ८, ३, २६.

या(य-आ)दि- -दयः अप ४७, १,

९; पाशि ४; शैशि १३; २७;

-दौ शौच ४, २९.

यादि-लोप-निपातन- -नम्

पावा ६, ४, १७४.

यो(य-उ)प(धा >)ध<sup>११</sup>- -धात् पा

५, १, १३२.

योपध-प्रतिषेध- -धे पावा ४,

१, ६३.

योपध-प्रस्थादि- -दीनाम् पावा

४, २, १०४.

२य-, यक, का- यद्- द्र.

यकन्<sup>१२</sup>- पा ६, १, ६३; -क्नः भाश्रौ

७, १८, १२; १९, १०; माश्रौ १,

८, ५, १८; आपमं १, १७, ३१<sup>३</sup>;

अप्रा ३, २, २२१<sup>३</sup>.

यकृत<sup>१३</sup>- पाठभो २, १, २६७; -कृत्

काश्रौ ६, ७, ६; आपमं २, १४,

२१<sup>३</sup>; आमिष्ट; या ४, ३६<sup>३</sup>.

यकृत-त्तस (:) या ४, ३.

यकृन्-मेदस्- पाग २, ४, ११.

यकृल्-लोम, मन्<sup>१४</sup>-( > याकृलोम

[, मन्]- पा.) पाग ४, २, ११०.

यकृल्-लोम-नख<sup>१५</sup>- (> याकृलो-

मनख- पा.) पाग ४, २, ११०.

a) उप. = देश-। b) = वर्ण-विशेष-। c) वस-। d) वैप १ द्र-। e) पाका. पागम. पाठः ।

f) = प्राम-विशेष- इति शाकटायनः ( तु. पागम. ) । g) तु. पागम. ।

✓यक्ष् (वधा.) पाधा. चुरा. श्राम्त.  
 पूजायाम् > यक्ष<sup>३</sup> - क्षः मागृ २,  
 १४, २९†; -क्षम् गोगृ ३, ४,  
 २७; द्रागृ ३, १, २५; अत्र १०,  
 १०; -क्षाः आगृ ३, ४, १; कौगृ २,  
 ५, १; शांगृ ४, ९, ३; क्रप ३,  
 ६, ९; अप ४३, २, ३७†; ७१,  
 १८, ३; नाशि १, २, १४;  
 -क्षाणि कौसू ९५, १; -क्षणाम्  
 अप ३६, १ ९; -क्षान् आमिगृ  
 २, ५, ३; ३†; वौगृ ३, ७, २१;  
 क्रप २, २, ३-८; शंघ ११६ :  
 २१; नाशि १, २, १६; -क्षभ्यः  
 मागृ २, १२, १७; -क्षेषु कौसू  
 ९३, ३.

यक्षी<sup>०</sup> > च्ची-त्रलि- नलिः

वौगृ ३, ११, ५.

यक्ष्य (क्षी-अ )तमी<sup>०</sup>-

-म्यौ वौगृ ३, ११, १.

यक्ष-यति- -तिः अप ६७, ५, ३.

यक्ष-राक्षस- -न्ताः वृदे ७, ६८.

यक्ष-राक्षस-किन्नर- -राः आमिगृ  
 २, ६, ७; ११.

यक्ष-राक्षस-नाग- -नैः अप ७०<sup>३</sup>,  
 १०, ७.

यक्ष<sup>३</sup> - पाठ १, १४०; -क्षम्  
 पागृ २, ९, १०; भागृ; -क्षमः  
 आपमं २, १२, ८; आमिगृ २,  
 १, ४ : १३; हिरु; -क्षमम्  
 आप्थौ २, १०, ४; आपमं १,  
 १७, १-६; कौगृ; -क्षमस्य या ३,  
 १५†; -क्षमाः आपमं १, ६, ९†;  
 वौगृ; -क्षमान् आपमं २, १२,

९; अप्राय; -क्ष्माय शांथौ १२,  
 १५, ५†<sup>d</sup>.

यक्ष-गृहीत, ता- -तस्य आगृ  
 १, २३, २०; ३, ६, ३; -ताम्  
 आप्थौ ९, १०.

यक्ष-घ्न- -घ्नम् ऋत्र २, १०,  
 १६३.

यक्ष-न्वात(न>)नी- -नीः वागृ  
 ५, २८†<sup>c</sup>.

यक्ष-नाश- -शाय वृदे ७, १५४.

यक्ष-नाशन<sup>१</sup>- -नः ऋत्र २,  
 १०, १६१†; अथमू २; -नम्  
 वृदे ८, ६४; ६६; अत्र ३, ७.

यक्षनाशनी- -नीः अत्र  
 १४, १.

यक्षनाशन-काम- -मः अत्र  
 ६, ८५.

यक्षनाशन-कुष्ठ-देवता->

त्य- -त्यम् अत्र ५, ४.

यक्षनाशन-देवता-> त्य-  
 -त्यम् अत्र ३, ११; ६, १२७.

यक्षनाशन-देवताक<sup>३</sup>-  
 -कम् अत्र १, १२.

यक्षनाशन-देवत<sup>३</sup>- -तन्  
 अत्र ३, ७; ६, २०; -ते अत्र २,  
 ९.

यक्षनाशना (न-अ)गिन-  
 देवत<sup>१</sup>- -तन् अत्र १, २५.

यक्ष-नाशि(न>)नी- -नी  
 ऋत्र २, १०, ८५; वृदे ७, १३३.

यक्ष-निर्गमन- -नम् अत्र २,  
 ३३.

यक्ष-वियर्हण- -णम् अत्र २,

३३.

यक्षिन्- -क्ष्मी विघ ४५, ३.

यक्षमो(क्ष-उ)पघात- -तः अशौ  
 २३, २†.

यक्षम<sup>३</sup>- पाठमो २, १, २८५;  
 -क्षणा आप्थौ १०, १९, ४;  
 २०, ७, २०; २२, २१, ११.

यक्ष्य<sup>३</sup>- -क्ष्येण अप २०, ३, ३†.

यक्ष्यत्-यक्ष्यमाण- ✓यञ् द्र.

✓यच्छ्, यम् ( वधा.)<sup>१</sup> पाधा. भ्रा.

पर. उपरमे दाने च; चुरा. पर.

परिवेषणे, यच्छति शांथौ २, ७,

१९; ४, ८, ३××; काथौ; यच्छतः

आपथौ १, १६, ७; ६, ७, ३;

वाधूथौ; यच्छन्ति आप्थौ ८,

१३, २२; काथौ १२, ४, २२;

माथौ; ऋयच्छामि आप्थौ ५

८, १; वौथौ; यच्छताम् वौथौ

३, २७ : १८†; ऋयच्छतु आमिगृ

२, १, ५ : १०; १२; वैगृ ६५ :

१०; मागृ २, ८, ६; यच्छताम्

या ९, ३८†; ऋयच्छन्ताम्

काथौ २, ३, १९; आप्थौ १,

१७, १२; वौथौ; यच्छन्तु

माथौ १, १९, १०†; हिथौ;

ऋयच्छ, > च्छा आप्थौ १, १२,

३७; २, ३, १७××; शाथौ;

आपथौ ६, ८, ११†; हिथौ ३, ७,

३६†; ५९†; आपमं २, ४, २†;

या ९, ३२†; क्रप्रा ७, ३३;

शुप्रा ३, १०७; यच्छतम् आप्थौ

४, १२, २; आपमं १, ८, ५;

ऋयच्छ, > ता आप्थौ १, १२,

a) वैप १ द्र. 1 b) = देवी-विशेष-1 c) हस. उप. ? 1 d) पाठः ? (तु. वैप १, १० b) 1

e) पाभे. वैप १, २५२९ a द्र. 1 f) उप. भावाद्यर्थे प्र. 1 g) = ऋषि-विशेष-1 h) वस. 1 i) हस. >

घन. 1 j) पा १, २, १५; १६; ७, २, ७३; ३, ७७; ७८ पावा ६, ४, ४० परावृष्टः द्र. 1 k) पा. नियमनदानादिषु

शुपिः 1 l) पाभे. वैप १, १५, ५६ c द्र. 1 m) सपा. आप्थौ ६, ६, ८ इह इति पाभे. 1 n) मपा. शांगृ १, २७, ०

संसद् इति पाभे. 1



३६; आपश्री ६, २१, १<sup>a</sup>; माश्री;  
अयच्छत् या २, १२<sup>क</sup>; अयच्छन्  
आपमं २, २, ३<sup>क</sup>; यच्छेत् आश्री  
८, ३४, ७; शांश्री; यच्छेताम्  
वाश्री १, २, ४, ११; यच्छेयुः  
दाश्री ३, ३, ४××; लाश्री.  
यन्धि निघ ३, १९<sup>क</sup>; यन्त>

न्ता ऋप्रा ७, ३३<sup>क</sup>.  
क्येमिरे माश्री १, ६, ३, १;  
अप्राय ५, ३; क्यंसत् आश्री २,  
११, १२<sup>क</sup>; शांश्री ३, ६, २<sup>क</sup>××;  
शांश्री १, २७, ७<sup>क</sup>; क्यंसत्  
या ९, १९<sup>क</sup>; तैप्रा १६,  
२०; अयंसत् या ७, २<sup>क</sup>;  
अयांसम् ऋप्रा १३, २७<sup>क</sup>.

यमयति आपश्री १०, १६, १६;  
१७, २; भाश्री; यमयत् आपमं  
२, ११, १८; यमयेत् दाश्री १४,  
१, ७; लाश्री ५, ५, ५.

यंयम्यते पावा ७, ४, ८५.

ययत->°त-वाच्- -वाक् विध  
६१, १६.

क्ययत-सुच्- -सुचः अप ४८,  
९६; निघ ३, १८.

यता(त-आ)त्मन्- -त्मनः वौध  
४, ५, १५.

यत्वा शांश्री २, १४, ९; आपश्री.  
यन्त(व्य>)व्या- -न्या आपश्री

१०, १६, ३.

यन्तु- -न्तोः चाञ ४०: १५.

यन्तु- -न्ता काश्री १४, ५, १८<sup>क</sup>;  
१५, ६, २९<sup>क</sup>; वौश्री; आपध २,  
२०, २०<sup>क</sup>; हिघ २, ५, १०५<sup>क</sup>;  
-कन्तारः अप ४८, १२; निघ  
३, १९; -कन्तुः वौश्री १०, ५८:  
२<sup>क</sup>××; वैश्री; चाञ ४०: १५<sup>क</sup>.  
क्यन्त्री- -न्त्री आपश्री १७, २,  
५; वौश्री.

यन्त्र(वप्रा.)<sup>क</sup>- पाठ ४, १६७;  
-न्त्रम् वौश्री ६, १२: ९<sup>क</sup>;  
वाधुश्री; जैय २, ९: ३६<sup>क</sup>;  
आमिग २, ५, १: ४८<sup>क</sup>; कप्र १,  
८, १; ३; -न्त्राणि वौध  
४, ७, ३; -कन्त्राभ्याम् आपश्री  
४, ६, ५; भाश्री ४, ९, ३; हिश्री  
६, २, १६; -कन्त्राय आपश्री  
१८, ५, २०; वौश्री; -कन्त्रे  
आपश्री २, ९, १३; ४, ६, ५;  
वौश्री; -न्त्रेण क्यौश्री १०, ५८:  
२××; वैश्री; आमिग २, ५, १:  
४८<sup>क</sup>; जैय २, ९: ३६<sup>क</sup>; वैध  
३, ८, १<sup>क</sup>; -न्त्रैः शांश्री  
६, १०, १०<sup>क</sup>; वौध ४, ७, १;  
४; विघ ४३, ४३; वृदे ८,  
५८<sup>क</sup>; या १०, ३२<sup>क</sup>.

यन्त्र-प्रयोग- -नाः अप २२, ८, ३.  
यन्त्र-प्रासाद- -दे अप ७०<sup>क</sup>,  
१०, ६.

यन्त्र-वाहन-शस्त्र- -स्त्रेषु अप  
७०, ५, २.

यम- पा ३, ३, ६३; -मान् पाय  
२, ७, १; वैध २, ४, ४; ८, ७.  
यम-नियम-मन्त्र- -न्त्रैः  
आमिग २, ७, १: ५<sup>क</sup>P.  
यम-नियम-मन्त्र-व्रतो(त-उ)प-  
वास->°सा(स-आ)दि-  
-दिभिः शंघ १६२.

यमनियममन्त्रव्रतोपवा-  
सिन्- -सी आमिग २, ७, ११:  
१४<sup>क</sup>.

यम-नियम-मन्त्रो(न्त्र-उ)पवा-  
सा(स-आ)दि- -दिभिः आमिग  
२, ७, १०: ८; शंघ ३६२.

यम-नियमा(म-आ)सन-प्रा-  
णायाम-प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-  
समाधि- -धयः वैध १, १०, ९<sup>क</sup>.

यमन- -कन्तः वौश्री १५, ५: ५;  
वाश्री ३, १, २, २२; वैश्री १७,  
१५: ६; हिश्री १३, २, १२; -नात्  
काश्रीसं २७: १२; या २, १५.

यमनी- -नी वाश्री २, १, ८, १<sup>क</sup>.  
क्यमि(तु>)त्री<sup>क</sup>- -०त्रि आपश्री  
१४, ३३, २; अप्राय ६, १.

यम्य आमिग १, २, ३: ११.

यम्य, म्या- पा ३, १, १००; -म्या  
निघ १, ७<sup>क</sup>; -म्येन वौश्री २६,  
१२: १९<sup>क</sup>.

ययाम- पा ३, ३, ६३; -मः शांश्री  
१५, ५, १३<sup>क</sup>; वौश्री १८, १५:  
१५<sup>क</sup>.

- a) पाभे. वैप १, १५५६ C द्र. । b) घा. याच्वायां वृत्तिः । c) पाभे. वैप १, २५३१ C द्र. ।  
d) पाभे. पृ १९९० II द्र. । e) वस. । f) = ऋषि-विशेष- । तुन् प्र. उसं. (पाठ १, ६९) । g) वैप १  
निर्दिष्टानां समावेशः द्र. । h) = सारथि- । i) = अदात्त- इति भाष्यम् । j) पाभे. वैप १, ७५३ ई द्र. ।  
k) वैप १ द्र. । l) अर्थः? यातना इति?, घोरम् इति C. शोधः (तु. वीथुशे [१, १६, ३७]) ।  
m) = पूजाधार-यन्त्र- [चित्र-] । n) = उपस्तम्भोपकरण- । o) भाप. (योगाङ्ग-) । p) मयन्त्रैः इति  
पाठः? यनि. शोधः (तु. आमिग २, ७, १०: ८) । q) मयन्त्रं इति पाठः? यनि. शोधः । r) नियमयमासं  
इति C. । s) भावे कर्तरि च कृत् । t) = रात्रि- । u) भाप. (नियमन-) । वाचंयम्येन इति संस्कर्तुः टि. ? ।  
v) = अन्त- इति C., = नियामक- इति सा (तां २०, ३, ५) ।

चेमान- नः उच्च ३, ११.

✓यञ् पाषा. भ्वा. उभ. देवपूजासङ्-  
तिकरणदानेषु, यजते आश्रौ २,  
९, ४१; शाश्रौ; यजति आश्रौ १,  
५, ३××; शाश्रौ; काठश्रौ ३६<sup>२०</sup>;  
यजतः शाश्रौ १०, ७, ९; काठश्रौ  
१४१; वौश्रौ; यजन्ते आश्रौ ३,  
१४, १०<sup>१०</sup>; ६, १४, २३××;  
शाश्रौ; यजन्ति आश्रौ १, १०,  
४××; शाश्रौ; ऋयजसि आश्रौ ५,  
१९, ३<sup>१</sup>; या ८, ५; ऋयजे आश्रौ  
८, १४, ४<sup>०</sup>; काश्रौ; माश्रौ १,  
८, ३, १<sup>१</sup>; आपमं २, ८, ५<sup>०</sup>;  
हिय १, २, १८<sup>०</sup>; यजामि अप  
६६, ३, २; ऋयजामहे आश्रौ ७,  
११, ३८; ८, १४, ४; शाश्रौ;  
आपश्रौ २, २०, ५<sup>०</sup>; माश्रौ २,  
१८, १६<sup>०</sup>; हिश्रौ २, ५, ४५<sup>०</sup>;  
यजामः गौषि २, ६, २२<sup>१</sup>; यजति  
वाधूश्रौ ४, २६: १८; या १४, २७;  
ऋयजाति आपश्रौ ३, १२, १;  
वौश्रौ; यजात् कौश्र ५, १२<sup>१</sup>;  
ऋयजासि हिश्रौ २१, १, १; तैत्र  
६६, १८; ऋयजस्व शाश्रौ १४,  
५५, ४; १५, १८, १<sup>१</sup>; ऋन्न  
२, ६, ११; या १०, २७; ऋयज,  
>जा आश्रौ ३, ९, ३; १२,  
१४<sup>०</sup>; ५, ८, ५××; शाश्रौ; वौश्रौ  
१३, ४३: २०<sup>०</sup>; हिश्रौ १५,  
१, ८६<sup>०</sup>; ऋयजऽयज काश्रौ  
३, २, १८; ५, ७; ९, ११,  
७; आपश्रौ; यजतात् आपश्रौ  
१४, १७, १<sup>१०</sup>; ऋयजतम्

आपश्रौ १२, २७, ६; २१, ७, १५;  
काठश्रौ; ऋयजघ्नम् आपश्रौ २०,  
२०, ९; माश्रौ ५, २, ७, १५;  
वाधूश्रौ ४, १०<sup>३</sup>: १०; या  
१२, ५; यजत > ता आपश्रौ  
२२, २५, १०<sup>१</sup>; वौश्रौ ९, ९:  
२४<sup>१</sup>; ऋयजे शाश्रौ १५, १८, १<sup>१</sup>;  
२०, १; १६, १०, १४; आपश्रौ;  
ऋयजाम आश्रौ १, ४, ११; शाश्रौ;  
अयजत शाश्रौ १४, ६, १××;  
वौश्रौ; अयजेताम् वौश्रौ १८,  
३५: ३; ५०: ३१; अयजन्त  
लाश्रौ २, १६, ७; शाश्रौ;  
अयजन् वाधूश्रौ ४, ४३: २-६;  
ऋयजयथा: आपश्रौ २०, ६, ५;  
वौश्रौ; यजेत, > ता आश्रौ १,  
१०, ६; शाश्रौ; यजेत् आश्रौ १,  
११, ११××; शाश्रौ; यजेयाताम्  
वौश्रौ १८, ३५: ६; लाश्रौ  
९, ४, ३०; ३२; यजेरन् शाश्रौ  
१३, ११, १; २०, ८; काश्रौ;  
यजेयुः माश्रौ ३, ८, ४; विध ३७,  
३५; यजेयन् शाश्रौ १४, २७, १;  
२८, १; यजेमहि शाश्रौ १४,  
४०, १.  
ईजे शाश्रौ १५, १६, १०; १६, ९,  
८××; वौश्रौ; ईजिरे वौश्रौ १८,  
३: १८; ४: १४; २६: ४-६;  
यक्ष्यते वाधूश्रौ ३, ६९: ५; ४,  
५: ३; यक्ष्यन्ति शाश्रौ १४, ४०,  
१; यक्ष्ये आपश्रौ २२, २, १६<sup>१</sup>;  
काश्रौसं; यक्ष्यामि कौश्र २, १२,  
१३; यक्ष्यावः माश्रौ १, ३, १,

१२<sup>३</sup>; वाश्रौ १, ३, ४ ७<sup>१</sup>;  
ऋयसि आपश्रौ ५, ६, ३; वौश्रौ;  
ऋयसत् आश्रौ १, ६, ५<sup>३</sup>; ३, ४,  
३××; शाश्रौ; वाश्र ४१ १४<sup>१</sup>;  
यसतः माश्रौ ५, १, ३, २७<sup>३</sup>;  
ऋयसक्षत आपमं १, ५, ५७;  
आयु; अयष्ट शाश्रौ १५, १६,  
११; अयाक्षीत् वौश्रौ २६, १४:  
३; ऋयसात् आश्रौ १, ३, १४;  
६, ३<sup>३</sup>; ८, ७××; शाश्रौ; अयात्  
ऽअयात् आश्रौ १, ६, ४; अया-  
धाम् माश्रौ ५, १, ३, २७<sup>१</sup>;  
अया: या ४, २५<sup>१</sup> ४<sup>१</sup>; अयाक्षी:  
या ४, २५; अयसध्वम्  
वाधूश्रौ ४, ५५: ९; अयसध  
वाधूश्रौ ४, ५५: ८; अयसमहि  
वाधूश्रौ ४, ५५: ८.  
इज्यते शाश्रौ १, १६, ३; इज्येते  
वाधूश्रौ ४, ४५: २; इज्यन्ते  
आपश्रौ ८, ९, १०; १३, ५<sup>१</sup>;  
वौश्रौ; इज्येत मांस् १०, ७, १०;  
इज्येरन् लाश्रौ ८, ९, १३.  
याजयते शुभ्र १, ५; याजयति  
वौश्रौ १३, ३: ११; १७: ४;  
वाधूश्रौ; याजयन्ते लुम् १, ११,  
१४; याजयन्ति आश्रौ ४, १, ७;  
शाश्रौ; याजयसी३ वाधूश्रौ ३,  
४१: ५; याजयतु वौश्रौ २, ३:  
१८<sup>१</sup>; याजयतात् वाधूश्रौ ४,  
७५: १९; ३०; याजय  
ऋवौश्रौ १८, ४७: ३; ९; याजयत  
शाश्रौ १४, ४०, १; वौश्रौ  
१८: २०: १२; वाधूश्रौ ४,

- a) या ७, १२ पा २, ३, ६३ परानुष्टः द्र. । b) सञ्च यत्रति इति पाठः? यनि. शोधः । c) पाभे. वैष १, १५४० d द्र. । d) पाभे. वैष १, २५३४ e द्र. । e) पाभे. वैष २, ३८. यजे मास १४, ९, ३, ३ टि. द्र. । f) सग. तै ३, १, ४, १ यजाम इति पाभे. । g) पाभे. वैष २, ३८. यजामहे तैत्रा ३, ७, ५, १३ टि. द्र. । h) पाभे. वैष १, २५३४ c द्र. । i) पाठः? यजेत इति c. शोधः । j) ष्व इति पाठः? यनि. शोधः (तु. उत्तरं स्पष्टम्) । k) पाभे. वैष १, २५३५ m द्र. । l) सग. मा २६, ४७ प्रच. अयात् इति पाभे. । m) पाभे. वैष १, २५३५ g द्र. ।

१०८ : २५; याजयानि वाधूश्री  
 ४, ७५ : २०; ३२; या २,  
 १०; याजयाम वाधूश्री ४,  
 १०८ : २१; धयाजयत् वौश्री  
 २४, १२ : ७; वृदे ५, ३३; ५३;  
 ऋयाजयन् आपश्री १४, १२,  
 ६; हिश्री १०, ६, ६; याजयेत्  
 शंघ ८८; याजयेत् आपश्री ९,  
 १४, १२; १०, २०, ८५५; वौश्री;  
 याजयेयु आश्री ६, १०, २४; ९,  
 ७, ४; ९, ४; शाश्री  
 याजयिष्यय वौश्री १८, २० :  
 १९; याजयिष्यामि वौश्री १८,  
 ४५ : १५; ३४; कौश्री ३, १२,  
 १४; वृदे ८, ५.  
 याजयां/कृ, याजयांचकार  
 शाश्री १६, ८, २७; वौश्री.  
 इज्य<sup>०</sup> - ज्यम् वैश्री २, ७ : १३;  
 १८ : १३; -ज्यानि काश्री ४७,  
 १६.  
 इज्यमान, ना-ना वौश्री १७, ४९ :  
 ७; -नाः शाश्री १, १६, १०;  
 -ने काश्री ५७, ४; -नेषु वाश्री १,  
 १, ५, १४.  
 इज्या<sup>०</sup> - पा ३, ३, ९८; -ज्यया वाध  
 २५, ७; -ज्या आश्री २, ८,  
 १००५५; शाश्री; -ज्याः मीसू  
 ४, ४, २९; -ज्यानाम् माश्री ५,  
 १, १, ७; कौश्री ८, ३; -ज्याम् निस्  
 २, ५ : २९; मीसू ११, १, ६२;  
 -ज्यायाम् शाश्री १, ३, ७; मीसू  
 ६, ६, ३९; -ज्यायै वौश्री २१, ६ :  
 ९; -ज्यासु माश्री ५, २, १०, ३.  
 इज्या-गामिन्-मी मीसू ६, ४,  
 २२.  
 इज्या-चोदना-ना मीसू ६,

५, १.  
 इज्या-दर्शन-नात् काश्री ८, ९,  
 ५.  
 इज्या-दानो(न-उ)पनयनसंस्कार-  
 क्रिया-याः शंघ ७६.  
 इज्या(ज्या-अ)ध्ययन-धर्म-  
 मेषु वाध ६, २२.  
 इज्या(ज्या-अ)नुवाक्या<sup>०</sup> - न्ये  
 आश्री ५, ५, ५; ६, ११, १०.  
 इज्या-प्रधान<sup>०</sup> - नम् वाश्री १,  
 १, १, ६१.  
 इज्याप्रधान-त्व-त्वात्  
 मीसू ६, ६, ३८.  
 इज्या-योग-गात् काश्री २५,  
 ४, ४०.  
 इज्या(ज्या-अ)र्थ-र्थम् वौश्री  
 २१, ६ : १२; वृदे ४, १०६.  
 इज्या-विकार-रः मीसू ३, ५,  
 ४९.  
 इज्या-विशेष-वत् मीसू ६, ६,  
 ३७.  
 इज्या-शेष-पात् मीसू १०,  
 ७, १०.  
 इज्या-संयुक्त-क्तम् वौध १,  
 ६, ४.  
 इज्या-संयोग-गात् मीसू १०,  
 १, ३४.  
 इज्या-स्तव-वः ऋश्री २, ८, ३१.  
 इज्यै(ज्या-ए)कत्व-त्वात्  
 काश्री ६, ७, १८.  
 ✓इयक्ष, इयक्षसि ऋश्री १७, २९; १;  
 इयक्षेत वौश्री २३, १७ : १०<sup>६</sup>;  
 इयक्ष्येत वौश्री १७, ४९ : ३<sup>६</sup>.  
 इयिष्येत भाश्री १, १५, १४<sup>६</sup>.  
 इष्ट-यद्र.  
 इष्टवत्-वान् कप्र ३, ७, १७; शंघ

१३८.  
 इष्ट्वा आश्री २, १६, २२५५; शाश्री.  
 इष्ट्वीनम् पा ७, १, ४८.  
 ईजान-नः काश्री ८, ९, ७; वौश्री  
 १३, ४१ : २५५; वाश्री; -ईनम्  
 वौश्री १२, ५ : १६; १७, ५० : २०;  
 ऋश्री २, १०, १३२; वृदे; -नस्य  
 शाश्री १४, ४०, १०; काश्री; -नाः  
 काश्री २५, ९, ७; या १३, ८.  
 इक्षयत्-इक्षयन् वौश्री १, १६ : ३;  
 ६, १८ : २८; हिश्री ४, ४, ३६.  
 इक्ष्यमाण-णः आश्री २, १,  
 १५५५; शाश्री; -णम् जैश्री १ :  
 १९; जैश्रीका ७; -णस्य शाश्री  
 २, १, ६५५; वौश्री १०,  
 ९ : २५५; माश्री; -णाः आपश्री  
 २१, २, १३; हिश्री १६, १, २८;  
 लाश्री; -णानाम् वाश्री ३, २, १,  
 ७; -णे वौश्री २०, ४ : ४०<sup>६</sup>.  
 यञ्> ईयजिष्ठ-ष्ठः आश्री ५,  
 ९, २१; आपश्री; -ष्ठम् आश्री  
 ७, ८, १; आपश्री.  
 ईयजीयस-यान् आश्री ३, १३,  
 १२; आश्री २४, १३, ३; वैश्री;  
 या ८, ८<sup>६</sup>.  
 यज>ज-प्रैष<sup>०</sup> -पाणि काश्री  
 १५, ४, ४; १८, ६, १९.  
 यज-स्थान-ने काश्री ६, ४, ८.  
 यजत्-जतः वधूश्री ३, १७ :  
 २१; वृदे ६, ५८; चाश्री १४ :  
 २; -जताम् अप १९<sup>२</sup>, १, २;  
 वृदे ६, ७३; -जति शाश्री १६,  
 ९, १०; -जन् वैश्री १, १ : १४.  
 यजत, ता-पाठ ३, ११०; -तः<sup>६</sup>  
 ऋश्री २, ५, ६७; साश्री २, ४९६;  
 -ईतम् आश्री २, १६, ११५५;

a) क्यप् प्र. उसं. (पा ३, १, १०९) । b) आप., नाप. । c) = देवता-देश- इति भाष्यम् ।

d) = याज्यानुवाक्या- इति भाष्यम् । e) वस. । f) परस्परं पाठे. । g) = ऋषि-विशेष- ।

आपथ्रौ; या १२, १७६; -तस्य या ८, ७१६; -ते या ८, १११६.  
 यजति<sup>a</sup> - तस्यः काश्रौ १, २, ४; ६; -तिः काश्रौ ४, ३, १; मीसू २, ३, १४; -तेः मीसू ७, ४, १.  
 यजति-चोदना- -ना मीसू ४, २, २७.  
 यजनि-जुहोति- -तीनाम् काश्रौ १, २, ५.  
 यजति-शब्द- -च्दात् काश्रौ १३, १, १३; १४, २, २८.  
 यजत्या(ति-आ)दि- -द्विषु काश्रौ १४, १, ११.  
 यजति<sup>b</sup> - > ण्ति-कर्मन्- -मै या ३, १९.  
 यजति-चोदन- -नात् मीसू ८, २, २७; १०, ६, ६१.  
 यजति-शब्द<sup>c</sup> - -च्देषु द्राश्रौ १, ३, ९०.  
 यजति-श्रुति- -तेः मीसू ८, २, २६.  
 यजते > यजने-शब्द- -च्देषु लाश्रौ १, ३, ९०.  
 यजत्र<sup>d</sup> - पाठ ३, १०५९; -०त्र आश्रौ ३, १४, १०१; पाठ १, ५, ११६; -०त्रा आश्रौ ९, ११, ११९; -त्राः गौपि २, ३, ७; अप्राय ६, १; -०त्राः आपथ्रौ ६, २२, १; १४, १६, १; हिश्रौ; -त्रैः आपथ्रौ ७, १४, २; वौश्रौ;  
 यजथ<sup>e</sup> - -चाय आपथ्रौ ५, ६, ३;

हिश्रौ ३, २, ५५.  
 यजथै या ८, १२१६.  
 यजध्वैनम्<sup>f</sup> पा ७, १, ४३.  
 यजन- -नम् वौष ३, १, १४; सुघ ७; ८; -नाय या ८, १२; १०, ८; १३, ७.  
 यजन-याजना (न-अ)ध्ययना(न-अ)ध्यापन-प्रदान-प्रतिग्रह- -हम् सुघ ६.  
 यजना(न-अ)ध्ययन- -ने विध २, ९.  
 यजना (न-अ)ध्ययन-दान- -नानि वैध १, १, ६.  
 यजनीय<sup>g</sup> - -यम् हिश्रौ १३, ७, ३३; -ययोः काश्रौ २४, ६, ३; २७; -ये आपथ्रौ १०, १५, २; ४; वौश्रौ; हिश्रौ १७, ६, १४; लाश्रौ ९, ३, ७।  
 यजनीय-काल- -लः काश्रौ २४, ६, २५.  
 यजनीय-प्रयोग<sup>h</sup> - -गः गोगृ ४, ६, ४; ८, २३; -गेषु गोगृ ४, ५, १२; द्रागृ ४, १, ४.  
 यजमान, ना<sup>i</sup> - पा ३, २, १२८; पाग ४, ४, ४८; ५, १, १३०; -णंन आश्रौ १, ९, १; ५, ३, ९२xx; शाश्रौ; -नः आश्रौ १, ७, ७xx; शाश्रौ; आपथ्रौ ९, २, ९१; हिश्रौ १५, १, ४८; -नम् आश्रौ १, १, १५; ४, ६, ३xx; शाश्रौ; आपथ्रौ ४, ५,

५१; ७, १७, २१; ९, १८, १२; वौश्रौ ६, ३० = १२; भाश्रौ ४, ८, २१; हिश्रौ ४, ३, ५५; ६, २, ९१; १५, ८, ३१; वैताश्रौ ४, १५; आमिष्ट ३, ९, १ = ५१; वौपि २, ५, ११; -नयोः काश्रौ २२, ११, १५; वैश्रौ; -नस्य आश्रौ १, ३, १; ५, ६, २३xx; शाश्रौ; -ना वैश्रौ ७, ९ = ११; हिश्रौ २, ५, १९; -नाः आश्रौ ५, ६, १६; ८, १३, १४xx; शाश्रौ; -०नाः द्राश्रौ १४, ३, ८; लाश्रौ ५, ७, ७; कौसू ७३, १५; -नात् द्राश्रौ १२, २, २३; लाश्रौ ४, १०, २५; -नात् आपथ्रौ २१, २०, २१; वौश्रौ; -नानाम् शाश्रौ १०, १५, ८; छसू १, १ = १४; १७; कप्र १, ७, १४; शुश्र १, ५४०; -नाभ्याम् शाश्रौ ६, १, ५; -नाय ऋश्रौ १, ३, ६xx; शाश्रौ; आपथ्रौ ४, ६, २१; हिश्रौ ६, २, १०; वैताश्रौ ६, १; -ने आश्रौ १, १०, ८; शाश्रौ; -नेन शाश्रौ १६, १८, १२; काश्रौ; -नेभ्यः शाश्रौ ६, १, ५; १०, १६, ८; १८, ८; १९, २; काश्रौ १२, ४, १८; -नेषु भाशि २४; -नैः काश्रौ १२, ३, ६; १३, २, २४; वौश्रौ १६, ५ = १०.

a) = याग- । b) घा. निर्देशः । c) पूष. = क्विप. अनुकरण- । d) ण्तिशः <> ष्तेन इति पाठे । e) वैष १ द्र. । f) पाठः? यद्, अत्र इति द्विपदः शोषः (तु. सपा. मै १, ७, १; B.C. च) । g) सपा. ऋ १०, ७, १ देव इति पाठे । h) वैष १, २५३९० द्र. । i) विप., नाप. (प्रतिपत्-तिथि-) । j) सप्र. आपथ्रौ १८, २२, १५ उद्दष्टे इति पाठे । k) वस. वा उस. वा । उप. कर्मणि घञ् प्र. । l) पाठे. वैष २, ३२. युजमानः तैत्रा ३, ७, २, ७ टि. द्र. । m) पाठे. वैष २, ३२. युजमानम् तैत्रा ३, ७, ६, ५ टि. द्र. । n) पाठे. वैष १, २५४१ d द्र. । o) णः इति c. शोषः । p) सपा. हिपि २१ : १६ गौपि १, १, २७ यजमानमांसम् इति पाठे । q) यजमानमांसम् इति R. । r) पाठे. वैष १, २३६४ h द्र. ।

यजमाना<sup>a</sup>- नी शाश्रौ  
१, १५, ६.

याजमान<sup>b</sup>- पा ४, ४, ४८;  
५, १, १३०; -नः वौश्रौ २१,  
५ : २५; २६; २५, ३, २२; -नम्  
शाश्रौ २, ११, १; १४, ७; ५,  
४, १; १३, १४, ३; काश्रौ ४,  
१२, १५; १२, १, ९; २५, १३,  
४१; आपश्रौ ४, १, १; १६,  
१८; २१, १, १९; काठश्रौ २१<sup>c</sup>;  
वौश्रौ १३, १ : ८; २०, १८ :  
१६××; भाश्रौ; लाश्रौ ८, ८, ९०;  
निसू ९, ९ : १२; आसिष्ट १, २,  
१ : ८; काष्ट २५, ३४; वौष्ट  
३, १, २१; शुश्र १, १४४;  
मीसू ३, ८, १९; -नम्-नम्  
माश्रौ १, ८, ६, २७; -नस्य  
वौश्रौ २०, १८ : १६; २३, १ :  
५; -नाः आपश्रौ १४, १५, ४;  
२१, ३, ३; वौश्रौ २०, १० :  
३४××; हिश्रौ; -नात् वैताश्रौ ४,  
२३; निसू ३, ८ : १९; -नानि  
वैश्रौ २०, २० : ५; वैताश्रौ ४,  
२३; -ने आपश्रौ २१, १, १८;  
वौश्रौ २०, २ : ५; २३, १९ :  
१५; २७, ६ : १५; भाश्रौ;  
-नेन वौश्रौ २१, ८ : ३९; वैताश्रौ  
४, २३; -नेषु मीसू १२, ४, १;  
-नैः आपश्रौ २१, ३, १०; वौश्रौ  
२०, १० : ३०; ३२××; भाश्रौ  
२, ७, ७; हिश्रौ १६, १, ३६.

याजमान-काल- ले

भाश्रौ ४, २२, १४.

याजमान-ब्रह्मत्व- त्वे

दाश्रौ ४, ४, १; लाश्रौ २, ३,

१७.

याजमाना(न-अ)संयुक्त-

-क्तः वौश्रौ २६, १ : ११.  
यजमान-कर्मन्- -र्माणि अप्राय  
३, ५<sup>d</sup>.  
यजमान-गण- -णे मीसू १२,  
४, ३२.  
यजमान-गृह<sup>e</sup>- -ह्याः काश्रौ ५,  
३, ३; ६, २४; १०, १.  
यजमान-चमस- -सः काश्रौसं  
३० : ९; -सम् वैश्रौ १५, ३१ :  
३; हिश्रौ ८, ७, ४३; -सात्  
वैश्रौ १५, ३१ : ४.

यजमानचमसो(स-उ)न्नयन-

क्रम- -मे वैश्रौ १५, ३१ : ३.

यजमान-त्व- -त्वम् मीसू ३, ७,  
३७; १०, ६, ५२.

यजमान-दशपद्-> °प(घ)>

द्या<sup>f</sup>- -द्याम् काश्रौ ५, ३, २९.

यजमान-देवता-> °व (त्य)>

त्या- -त्या शुश्र २, १२०.

यजमान-नर- -राः जैश्रौका  
१३७.

यजमान-नामधेय- -यानि दाश्रौ  
१, ३, १९; लाश्रौ १, ३, १८.

यजमान-निमित्त<sup>g</sup>- -त्तः शाश्रौ  
४, ६, ३.

यजमान-पञ्चम<sup>h</sup>- -माः शाश्रौ  
१, १२, ६; आपश्रौ.

यजमान-पत्नी-होत्रा (तृ-आ)

शिसू- -शिषः ऋश २, १०,  
१८३.

यजमान-पात्र-> °त्र(त्र-ऋ)

जीपि-हविस- -वीपि काश्रौ २२,  
६, ७.

यजमान-पाद-मा(त्र>)त्री-  
-त्रीम् काश्रौ १६, ३, २१.

यजमान-पितृ- -नृभ्यः काश्रौ  
१०, ५, १२; वैश्रौ १६, १५ : २.

यजमान-पुरोहित- -तौ अ५ २९,  
१, ५.

यजमान-प्रथम<sup>i</sup>- -मान् वैश्रौ  
१६, २६ : ११; हिश्रौ ९, ५,  
४४.

यजमान-प्रशंसा- -सा ऋश २,  
८, ३१.

यजमान-प्रसङ्ग- -ङ्गात् वृदे ६,  
७२.

यजमान-बहुत्व- -त्वेन मीसू १०,  
६, ६०.

यजमान-बाहु- -हुम् काश्रौ  
१५, ४, १४.

यजमान-ब्राह्मण- -णम् अश्र  
२, ६(२).

यजमान भयंकर- -रम् अप  
३०<sup>l</sup>, १, ६.

यजमान-भाग- -गः काश्रौ ८,  
१, ६; वौश्रौ २०, २४ : ३९××;  
वाधूश्रौ २, १५ : १; -गम्  
आश्रौ १, १३, ३; शाश्रौ;  
-गस्य आपश्रौ ४, १६, ९;  
वौश्रौ २५, ६ : ८; भाश्रौ ४,  
२२, ३; -गात् माश्रौ १, ३, ३,  
१९; -गे वौश्रौ ३, १८ : २३;  
२०, २४ : २९; वैश्रौ ६, ११ : ६.

यजमान-भाग-प्रादान- -नम्  
हिश्रौ ६, ४, १६.

यजमान-भाग-ब्रह्मभाग- -गौ  
वौश्रौ २४, ३ : ७; ३७ : ५; २५,  
६ : ९.

a) स्त्री. डीप् प्र. (पा ४, १, ४८) । b) वप्र. सत् विप. (मन्त्र- प्रम्.), नाप. (यजमान-कर्मन्, [याज-

मानाध्वर्यवकाण्डोक्त-] मन्त्र- प्रम्.) । तस्य धर्म्यमित्याद्यर्थे षण् प्र. । c) °ज्य° इति याठः इति यनि. शोत्रः ।

d) उप. = पारिवारिक-जन- । e) विप. । प्रमाणे यत् प्र. । f) वस. ।

यजमान-मांस- -सम्<sup>०</sup> हिपि  
२१ : १६; गौपि १, १, २७.

यजमान-मात्र,त्रा- -त्रम् हिशु  
२, ६; -त्राम् वाश्रौ १, ३, १,  
४३.

यजमानमात्रो- -त्री वौश्रौ  
२४, २४ : ४; माश्रौ २, १, २<sup>०</sup>;  
आपशु; -त्रीम् काश्रौ ८, ५, २६;  
आपश्रौ २, १, १<sup>०</sup>xx; माश्रौ.

यजमानमात्रो-संसि  
(त>)ता- -ताः हिश्रौ ७, ७,  
१२.

यजमान-मुख- -स्तेन वौश्रौ  
२४, २४ : १०.

यजमानमुख-मात्र- -त्रम्  
काश्रौ ६, ४, ४.

यजमान-यज्ञपति-वाद- -दान्  
माश्रौ ५, २, १३, १.

यजमान-योग- -गात् काश्रौ ९,  
१३, २३.

यजमान-लोक- -के वौष ३, ७,  
११.

यजमान-लोमन्- -भानि काश्रौ  
४, १, १८.

यजमान-वन् वैश्रौ १५, २४ : ४;  
मीस् ९, ४, १०.

यजमान-वशा- -शाः वौश्रौ १७,  
४ : १२.

यजमान-वाचन- -नम् द्राश्रौ  
५, २, ११; लाश्रौ २, ६, १२;  
-नात् द्राश्रौ ६, ३, ६; लाश्रौ २,  
११, ३; -ने द्राश्रौ ४, १, ६;  
लाश्रौ २, १, ६.

यजमान-वाचिन्- -चि माश्रौ ५,  
२, ९, ३.

यजमान-व्रत- -तम् वौश्रौ २१,  
९ : २९.

यजमान-व्रतदुषा- -वाम् काश्रौ  
२६, ७, ४३.

यजमान-शब्द- -व्दम् द्राश्रौ  
३, २, ८; लाश्रौ १, १०, ६;  
-व्दात् आश्रौ ५, ३, ७; निस्  
५, १३ : ९.

यजमान-पष्ठ- -ष्ठाः काश्रौ ८,  
२, ६; वैश्रौ ८, १३ : १०; १३,  
१४ : ६.

यजमान-संस्कार- -रः मीस्  
११, ३, ३४.

यजमान-संचर- -रः लाश्रौ ४,  
१०, २८; -रेण लाश्रौ ३, ७,  
११.

यजमान-सदन- -नम् वैश्रौ १५,  
२३ : १८.

यजमान-सप्तदश- -शाः आपश्रौ  
१२, १, २; माश्रौ १२, १, २.

यजमान-समाख्यान- -नात्  
मीस् ३, ८, ११<sup>०</sup>.

यजमान-संसि (त>)ता- -ता  
आपश्रौ ११, १०, २; -ताम् वैश्रौ  
१४, १० : ८.

यजमान-सहित- -तम् काश्रौ  
७, ८, १७.

यजमाना(न-आ)ग्नि-द्वैत्य-  
-यम् शुभ २, ३४०.

यजमाना(न-अ)ग्न्यु (मि-उ)  
पस्थान- -नम् शुभ १, १७७.

यजमाना(न-अ)नुज्ञात- -तः  
वैश्रौ १२, १ : ६.

यजमाना(न-आ)यत- -तम्  
वैश्रौ ११, ९ : १.

यजमाना(न-आ)यतन- -नम्  
आपश्रौ १२, २०, ७; -नात्  
वौश्रौ १२, ११ : १०; -ने  
आपश्रौ १४, २०, ५; १९, ९, १४;  
२२, २५, ५; २८, २; १०; वौश्रौ.  
यजमाना (न-आ)ल्ठ- -उम्  
वैश्रौ १७, १३ : ५.  
यजमाना(न-आ)र्यजन- -नात्  
(?नाः<sup>०</sup>) वैताश्रौ ९, १८.  
यजमाना(न-आ)र्येय- -याणि  
काश्रौ ३, २, ८.  
यजमाना(न-आ)शिस- -शिपम्  
शुभ १, २२६; -शीः शुभ १,  
१७०; २, ३८९xx.  
यजमाना(न-आ)सन- -ने आश्रौ  
६, १०, २८; क्रप्राय ३, ५.  
यजमाना(न-आ)हत- -तम्  
वाश्रौ १, ५, २, १५.  
यजमानो(न-उ)क्ति- -क्तौ काश्रौ  
१०, ८, ३२.  
यजमानो(न-उ)च्छ्रय- -यम्  
अप २१, ५, ३.  
य(ज>)जा- -जायै पाठ २, १७,  
१०.  
यजुत् (:ऋ,य्)<sup>०</sup>- पाठ २, ११७;  
पाठ ४, २, ६०४; -जुः शश्रौ  
६, २, २; काश्रौ २४, ७, १९;  
आपश्रौ ४, ३, ५; ११, ६१xx;  
वौश्रौ; हिश्रौ १, १, २२; मैत्र  
७; २९; ३१; ३२; वा १, १६१;  
७, १२७; -जुभिः काश्रौ २,  
१३, ८; ऋषापश्रौ १०, ३,  
६xx; वौश्रौ; -जुभ्यः जैश्र  
२, ८ : ७; वौष ३, ९, ५१;  
-जुभ्याम् आपश्रौ ३, ८, ५;

यजमाना(न-आ)यतन- -नम्

आपश्रौ १२, २०, ७; -नात्

वौश्रौ १२, ११ : १०; -ने

आपश्रौ १४, २०, ५; १९, ९, १४;

२२, २५, ५; २८, २; १०; वौश्रौ.

यजमाना (न-आ)ल्ठ- -उम्

वैश्रौ १७, १३ : ५.

यजमाना(न-आ)र्यजन- -नात्

(?नाः<sup>०</sup>) वैताश्रौ ९, १८.

यजमाना(न-आ)र्येय- -याणि

काश्रौ ३, २, ८.

यजमाना(न-आ)शिस- -शिपम्

शुभ १, २२६; -शीः शुभ १,

१७०; २, ३८९xx.

यजमाना(न-आ)सन- -ने आश्रौ

६, १०, २८; क्रप्राय ३, ५.

यजमाना(न-आ)हत- -तम्

वाश्रौ १, ५, २, १५.

यजमानो(न-उ)क्ति- -क्तौ काश्रौ

a) पाभे. पृ १९९४ p ६. । b) फस्वरं पाभे. । c) वस. । d) याजमाने सन्ना इति जीसं.

प्रसारं. । e) पाठः इ यनि. शोषः (तु. c., सप्र. लाश्रौ ५, ३, ६ यजमानस्यानात्याः इति पाभे. च) । f) वस. ।

g) = देवता-विशेष- । h) वैष १ द. । i) तु. पागम. ।

१६, २२, ७; बाधूश्रौ; -जुपः  
 वौश्रौ ७, १७ : ३; माश्रौ; -जुषा  
 काश्रौ २५, १, १३; आपश्रौ;  
 -जुषाम् शाश्रौ १३, २०, ७;  
 अप्राय ३, ४; शंघ २००; शुअ  
 १, २; अर्प २ : २; चव्यू २:१२;  
 ३९; ऋप्रा १६, १०; १३; याशि  
 १, ३१; उनिस् ३ : १७; पिं २,  
 ६; १६; -जुषि शुप्रा १, १३२;  
 पा ६, १, ११७××; -जुषी  
 वौश्रौ ६, ६ : २४××; शुअ;  
 -**जुषेऽ-जुषे** शाश्रौ ४, ८,  
 १; वौश्रौ; -जुषोः वौश्रौ २१,  
 १० : १; बाधूश्रौ ४, ११५ : ८;  
 -जुषु आमिष्ट १, १, ३ : २९†;  
 शुप्रा ४, ८०; चाअम् ४; -जुःपु  
 वैग २, ६ : ६†; हिष्ट १, ५, १३†;  
 वृदे २, १५३; १५४; -जुंषि  
 शाश्रौ १५, ११, ६; काश्रौ;  
 आगृ ३, ३, १-३; आमिष्ट २, १,  
 ४ : ३†; चव्यू २ : १०; ३१.  
 याजुप<sup>७</sup> -षः वौश्रौ २२, २:  
 ३; -पम् शाश्रौ १६, २, ६; वौश्रौ  
 २०, २ : ३८; ४०; -षाः मैअ  
 २०; -षाणि याशि १, ३९०;  
 -षात् वौश्रौ २०, २ : ३८; ४०;  
 -षेषु मैअ २८.  
 याजुषी- षी अअ ८,  
 १०(२); ९, ६ (१, ६)××; षीः  
 वौश्रौ १०, २० : १४××; षीम्  
 वौश्रौ १०, ५५ : ३-६; ष्यै  
 वौश्रौ २२, २ : २.  
 याजुपी-गायत्री-  
 -ज्यः अअ ११, ३(२).

याजुष्क- पा ४, २, ६०.  
 १यजुर्-अन्त- -न्ते शुअ २, १३.  
 २यजुर्-अ (न्त>)न्ता<sup>८</sup> -न्ता  
 शुअ १, १३२; ३५५××; -न्ताः  
 शुअ २, १८२; -न्ताम् शुअ १,  
 १३०; ४६८; २, १०३; -न्ते  
 शुअ १, ३२२.  
 यजुर्-अन्तम<sup>९</sup> -मानि वैश्रौ  
 १८, १ : १३.  
 यजुर्-अन्तरय<sup>१०</sup> -ये द्राश्रौ १,  
 १, २६; लाश्रौ १, १, २५.  
 यजुर्-अष्ट(म>)मा<sup>११</sup> -माभिः  
 आपश्रौ १६, १, ४; हिश्रौ ११,  
 १, ७.  
 यजुर्-आदि- -दि भाशि १२९.  
 यजुर्-इष्टका- -काः वौश्रौ १९,  
 ७ : ४५; -के वौश्रौ १९, ७ : ६;  
 १५; २६; ३४.  
 यजुर्-उत्पूत,ता- -ताभिः भाश्रौ  
 ७, १७, ८; माश्रौ १, ८, १, २५;  
 २, २, १, १९; वैश्रौ १६, २३ : ५;  
 हिश्रौ ९, ५, ६; १२, ५, १९;  
 -तेन हिश्रौ ५, ३, ९.  
 यजुर्-उन्न<sup>१२</sup> -न्नः या ३, १९.  
 यजुर्-ग(र्भ>)र्भा<sup>१३</sup> -र्भा शुअ  
 २, १९.  
 यजुर्-निगद- -देपु आश्रौ ३, २,  
 १६.  
 यजुर्-म(ध्य>)ध्या<sup>१४</sup> -ध्या  
 शुअ १, ६१५.  
 यजुर्-मय- -यः लाश्रौ १, ६,  
 ३७†; सु २७, ३; शुअ ४, २१९;  
 -यम् वौश्रौ १६, ६ : १७; -याः  
 मैअ २१.

यजुर्-मान- -नम्<sup>१५</sup> आपश्रौ  
 २१, १३, ८; ९; -नस्य हिश्रौ  
 १६, २, ९<sup>१६</sup>; -नेन<sup>१६</sup> हिश्रौ १६, २,  
 १०; ११.  
 यजुर्-युक्त- -क्तः आपश्रौ १८,  
 ३, १३; वैश्रौ १७, ११ :  
 ६××; मीस् १०, ३, ७४<sup>१७</sup>;  
 -क्तम् काश्रौ १४, ३, १८;  
 आपश्रौ १५, ६, २<sup>१८</sup>; १८, ३,  
 १०××; वौश्रौ; -क्तात् काश्रौ  
 १४, ४, १२.  
 यजुर्-युज्- -युजः वौश्रौ ११, ७:  
 २२; ९ : ४; -युजम् वौश्रौ ११,  
 ९ : ९.  
 यजुर्-विद्<sup>१</sup> -विदम् वैताश्रौ  
 ११, २.  
 यजुर्-वेद<sup>१८</sup> -दः आश्रौ १०, ७,  
 २; शाश्रौ १६, २, ६; बाधूश्रौ;  
 -दम् कौष्ट १, १६, १६†<sup>१९</sup>; शांष्ट  
 १, २४, ८†<sup>२०</sup>; आमिष्ट; -दस्य  
 वौष्ट २, ९, ५; भाग ३, १५ =  
 ४; चव्यू २ : १××; -दात्  
 वैताश्रौ १, ८; -**दाय** आमिष्ट  
 १, २, २ : २५; वौष्ट; -दे  
 शाश्रौ ३, २१, ३; आमिष्ट २, ४,  
 १२ : ११; पागृ २, १०, ५; साअ  
 १, १९२; -देन आपश्रौ २४, १,  
 ६; ९; १८; माश्रौ.  
 यजुर्वेदा(द-आ)म्नाय- -ये  
 शुअ १, १.  
 यजुः-शब्द- -ब्दः मीस् २, १,  
 ३५.  
 यजुः-श्रुति- -नौ ऋअ ३, १३.  
 यजुप्-कृत- -तम् वौष्ट ३, ५, ७;

a) सपा. यजूषि<>यजुर्वेदम् इति पाभे. । b) विप. । तस्येदमाद्यर्थे ङण् प्र. । c) भाप. ।

d) बस. । e) उप. =त्याग- इति भाष्यम् । f) उप. <√उद् । g) सपा. णम् <> णस्य  
 <> णेन इति पाभे. । h) ङ्क्ते इति जीसं. । i) शोघार्थं वैप १, २५४२ g द्र. । j) उप. <√विद्  
 (ज्ञाने) । k) =वेद-विशेष- ।

-तानाम् वीश्री ३, १५: १३.  
यजुप्-क्रिया- -या काश्री १, १०,  
१३.

यजुप्-ट(<त)स(ः) आश्री १,  
१२, ३२; आपश्री.

यजुप्-ट्व(<त्व)- -ट्वम् मैअ  
१५.

यजुप्-पात्र- पा ८, ३, ४८.

यजुप्-मत्व- -मत्व या ११, ४३.

यजुप्-मती<sup>a</sup>- -ती: काश्री १६,  
७, १८; १७, ९, १५.

यजुप्:(,पू।हिघ.)-पवित्र<sup>b</sup>-  
-त्रेण आपश्री १, २, २; हिघ १, १,  
३५.

यजुः(,स।वैध.)-संहिता- -ताम्  
वैघ ६, ८: ९; वैध २, १३, ५.

यजुः-सहस्र- -साणि चव्यू २:  
१८.

यजुः-साम(म-ऋ)च्- -मर्चाम्  
उनिसू ३: १?०.

यजुः-सुत<sup>a</sup>- -तम् या ११, ४.

यज्ञ<sup>o</sup>- पा ३, ३, ९०; पाग ४, २,  
६०; ३, ७३; -यज्ञ आश्री १,  
११, १५; शाश्री; आपश्री १४,  
२७, ७६; विघ ९८, ५३S<sup>b</sup>; -यज्ञ:  
यज्ञाश्री १, ११, ७; १२, ३४; ३.

१०, ६; १३, १५; १४, १०<sup>1</sup>xx;  
शाश्री; आपश्री २, १४, १३<sup>1</sup>; ३,  
१२, १<sup>2</sup>फ<sup>क</sup>; १४, २६, ५<sup>1</sup>;  
वौश्री फ<sup>क</sup>, ३: २३<sup>m</sup>; भाश्री ३,  
११, १<sup>2</sup>फ<sup>क</sup>; ७, ५, ६<sup>1</sup>mm; हिश्री  
२, ६, १६<sup>1</sup>फ<sup>क</sup>; ४, २, २०<sup>1</sup>फ<sup>m</sup>;  
आमिग १, ५, ४: १८<sup>2</sup>फ<sup>क</sup>; निघ  
३, १७<sup>1</sup>फ<sup>क</sup>; या ३, १९<sup>1</sup>फ<sup>क</sup>; ७, ४;  
७; -यज्ञम् यज्ञाश्री १, ३, २३xx;  
शाश्री १, १५, १७<sup>1</sup>फ<sup>0</sup>; १०, ९,  
१७<sup>2</sup>फ<sup>1</sup>फ<sup>0</sup>; काश्री २, २, २१<sup>1</sup>फ<sup>1</sup>फ<sup>0</sup>;  
आपश्री ७, १७, २<sup>1</sup>फ<sup>1</sup>फ<sup>0</sup>; ९, १६,  
४<sup>1</sup>; १४, ३०, ४<sup>1</sup>फ<sup>1</sup>फ<sup>0</sup>; ३२, ७<sup>1</sup>फ<sup>1</sup>फ<sup>0</sup>;  
२२, १९, १<sup>2</sup>फ<sup>1</sup>फ<sup>0</sup>; हिश्री ४, ३,  
५५<sup>1</sup>फ<sup>1</sup>फ<sup>0</sup>; १५, ७, १९<sup>1</sup>फ<sup>1</sup>फ<sup>0</sup>; शाश्री ४,  
१२, ७<sup>1</sup>; -यज्ञस-यज्ञम् शाश्री  
४, ११, १; काश्री ३, ३, १२;  
वौश्री १, २१: ७; ३, २०: ६; भाश्री  
१, ३, २, ७; -यज्ञस्य आश्री १,  
६, १<sup>1</sup>फ<sup>1</sup>फ<sup>0</sup>; ३, १३, १५xx;  
शाश्री; आपश्री ३, १२, १<sup>2</sup>फ<sup>1</sup>फ<sup>0</sup>;  
भाश्री ३, ११, १<sup>2</sup>फ<sup>1</sup>फ<sup>0</sup>; हिश्री २,  
६, ४<sup>1</sup>फ<sup>1</sup>फ<sup>0</sup>; १५, ७, ८<sup>1</sup>फ<sup>1</sup>फ<sup>0</sup>; आमिग  
१, ५, ४: १७<sup>1</sup>फ<sup>1</sup>फ<sup>0</sup>; -यज्ञास-यज्ञा  
आश्री ५, २०, ६; शाश्री;  
-यज्ञा: आपश्री १३, २२, १<sup>1</sup>फ<sup>1</sup>फ<sup>0</sup>;

वाधूश्री; हिश्री ९, ५, ४३<sup>1</sup>फ<sup>1</sup>फ<sup>0</sup>;  
-यज्ञात् आपश्री ६, २४, ८;  
वौश्री २, ९: ३<sup>1</sup>फ<sup>1</sup>फ<sup>0</sup>; भाश्री; -यज्ञात्  
शाश्री १५, ५, १; द्राश्री;  
-यज्ञानाम् आश्री १, ३, ६xx;  
शाश्री; उनिसू ४: ४; -यज्ञाय  
आश्री ७, ११, १४; १७; शाश्री;  
आपश्री १२, २२, ९<sup>1</sup>फ<sup>1</sup>फ<sup>0</sup>; वौश्री  
७, १३: २८<sup>1</sup>फ<sup>1</sup>फ<sup>0</sup>; हिश्री ८, ७,  
१९<sup>1</sup>फ<sup>1</sup>फ<sup>0</sup>; -यज्ञे यज्ञाश्री १, ९, १;  
१०, ८; २, २०, ४<sup>1</sup>फ<sup>1</sup>फ<sup>0</sup>xx; शाश्री;  
काश्री २३, ३, १<sup>1</sup>फ<sup>1</sup>फ<sup>0</sup>फ<sup>1</sup>फ<sup>0</sup>; भाश्री १,  
६, ३, १८<sup>1</sup>फ<sup>1</sup>फ<sup>0</sup>फ<sup>1</sup>फ<sup>0</sup>; हिश्री १७, ७,  
१०<sup>1</sup>फ<sup>1</sup>फ<sup>0</sup>फ<sup>1</sup>फ<sup>0</sup>; कौश्री ३, ११, ६<sup>1</sup>फ<sup>1</sup>फ<sup>0</sup>फ<sup>1</sup>फ<sup>0</sup>; ४,  
४, ११<sup>1</sup>फ<sup>1</sup>फ<sup>0</sup>फ<sup>1</sup>फ<sup>0</sup>; अथ ७, ९७<sup>1</sup>फ<sup>1</sup>फ<sup>0</sup>फ<sup>1</sup>फ<sup>0</sup>;  
-यज्ञे-यज्ञे वाधूश्री ४, ११४: ५;  
निसू ३, १०: ४२; -यज्ञेन  
यज्ञाश्री १, ३, २२; २, १६,  
७xx; शाश्री; आपश्री २, १४,  
१३<sup>1</sup>फ<sup>1</sup>फ<sup>0</sup>फ<sup>1</sup>फ<sup>0</sup>; यज्ञाश्री २, १, ३७<sup>1</sup>फ<sup>1</sup>फ<sup>0</sup>फ<sup>1</sup>फ<sup>0</sup>;  
या १२, ४१<sup>1</sup>फ<sup>1</sup>फ<sup>0</sup>फ<sup>1</sup>फ<sup>0</sup>; -यज्ञेभिः आश्री  
७, ११, २४; शाश्री १०,  
५, ६; -यज्ञेषु आश्री ८, ९, २<sup>1</sup>फ<sup>1</sup>फ<sup>0</sup>;  
यज्ञाश्री; -यज्ञैः आश्री ३, ८, १;  
शाश्री; हिश्री ३, ६, १५<sup>1</sup>फ<sup>1</sup>फ<sup>0</sup>फ<sup>1</sup>फ<sup>0</sup>; -यज्ञौ  
कौश्री ७२, ४४; ७३, १६<sup>1</sup>फ<sup>1</sup>फ<sup>0</sup>फ<sup>1</sup>फ<sup>0</sup>.

- a) = इष्टका-विशेष- । b) = मन्त्र-विशेष- (तै १, २, १, १) । c) 'मर्चि इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. संस्कृतः टि.) । d) उप. <√सु [अभिपवे] । e) वैप १ द्र. । f) तु. पागम. । g) पामे. वैप १, २५४३ d द्र. । h) = विष्णु- । i) पामे. वैप १, १२७२ S परि. च द्र. । j) पामे. पृ १७५५ a द्र. । k) पामे. वैप २, ३ खं. यज्ञः तैत्रा ३, ७, ११, ५ टि. द्र. । l) सपा. हिश्री १५, ६, ३६ यज्ञक्रतुः इति पामे. । m) सपा. आपश्री ७, ७, २ विष्णुः इति पामे. । n) वृष्टितः पाठः (तु. सपा. हिश्री ४, २, २०) । o) पामे. वैप २, ३ खं. यज्ञम् शां २६, ६ टि. द्र. । p) सकृत् सपा. शौ ६, ३५, ३ आश्री ८, ११, ४ उक्थम् इति पामे. । q) सपा. शौ ९, ५, २ यज्ञे इति पामे. । r) पामे. पृ १८८५ j द्र. । s) पामे. वैप २, ३ खं. यज्ञे तां २१, १०, १९ टि. द्र. । t) सपा. यज्ञम् <> यज्ञे इति पामे. । u) पामे. वैप २, ३ खं. यज्ञस्य तैत्रा ३, ७, ११, ५ टि. द्र. । v) पामे. वैप १, २३८८ f द्र. । w) पामे. वैप १, २५४९ c द्र. । x) सपा. मं १, ३, १२ यज्ञे इति पामे. । y) पक्षे इति BI. । z) पामे. पृ ४४९ e द्र. । a<sup>1</sup>) सपा. शाश्री ४, १८, ७ यज्ञे इति पामे. । b<sup>1</sup>) पाठः ? यज्ञस्य इति शोधः । c<sup>1</sup>) पामे. पृ १७५६ f द्र. । d<sup>1</sup>) पामे. वैप १ परि. अथे शौ १२, २, ६ टि. द्र. ।



याज्ञ<sup>१</sup>- पा ४, ३, ७३; -ज्ञे  
अप्राय १, १; या १, १७<sup>०</sup>; ६,  
२२; -ज्ञेषु या ७, ३.

याज्ञ-द्वैवत- -तः या ७,  
४०; -ते या १, २०<sup>०</sup>.

याज्ञिक, का<sup>२</sup>- पा ४, २, ६०;  
-कः वाग् ६, ३२; काञ्चु ७, ३४;  
-कम् वैश्रौ ११, ९ : ५; आग्निग्;  
-कस्य पाग् २, ६, ८; वौध १, २,  
१६; -काः वौश्रौप्र ३ : १३<sup>१</sup>;  
जैश्रौका २१५; निस् २, १ : ७;  
२८<sup>२</sup>; वैग् १, ८ : ८<sup>६</sup>; कप्र;  
-कात् आग्निग् २, ७, २ : १५;  
३, ९, ३ : १; वौग् १, ३, २; भाग्;  
-कानाम् वौश्रौ २८, १३ : १४;  
वैश्रौ; -कानि वौपि ३, १, २०;  
-कै आग्निग् २, ४, ९ : १४; अप  
२३, ५, २; -केभ्यः शाग् १,  
१४, १७<sup>०</sup>; -केषु अप २३, ६,  
३; -कैः शाश्रौ ७, ४, १३; वैश्रौ.

याज्ञिकी- की शाश्रौ  
१, २, ३; काञ्चु ७, २७; -कीभ्यः  
ऋग् ३, १, ४; २, ५××.

याज्ञिक-शकल- -लानि  
आग्निग् ३, १२, २ : २.

याज्ञिका(क-अ)नुमत-  
-तेन अप २३, १४, १.

याज्ञिक्य- पा ४, ३,  
१२९.

यज्ञ-कर्मन्- र्म मीस् ९, १, १;  
९; -र्मणि काश्रौ १, ८, १९;  
वौश्रौ.

यज्ञकर्मा( र्म-अ) र्थ- र्थाः  
हिश्रौ १, १, ५.

यज्ञ-काण्ड-परिच्छद<sup>१</sup>- दम्  
अप २४, ४, १.

यज्ञ-काम--०म शाश्रौ १६, २९,  
७<sup>१</sup>; -मः आपश्रौ ५, ३, ६; ७,  
१, १६; माश्रौ; -मस्य शाश्रौ  
५, २, २; हिश्रौ २१, २, ५०<sup>१</sup>; या  
१०, ४५; -माः आपश्रौ २१,  
१, १४; निस् २, ३ : १६.

यज्ञ-कात्स्न्य- -त्स्न्यम् हिश्रौ ३,  
१, ८.

यज्ञ-काल- -लः लाश्रौ ८, १,  
१; निस् २, ५ : १५.

यज्ञकाला(ल-अ)र्थ-सिद्धि-  
-द्वये वेज्यो २.

यज्ञ-कीर्ति- -र्तिम् चाअ ३० : ९.

यज्ञ-कृत्<sup>१</sup>- -ऋतः वौश्रौ ७,  
१० : २; वैश्रौ १५, २३ : २; हिश्रौ  
८, ५, २४; -कृताम् लुस् ३,  
२ : २.

यज्ञ-क्लृप्त्य(प्ति-अ)र्थ- र्थम्  
अप २३, ११, ४.

यज्ञ-ऋतु<sup>१</sup>- -त्तवः शाश्रौ १६,  
२३, ६; वौश्रौ १४, ४ : २४<sup>१</sup>××;

वाधुश्रौ; -तुः शाश्रौ १६, २०,  
१३; २९, ८<sup>१</sup>; वौश्रौ; हिश्रौ

१५, ६, ३६<sup>६</sup>; -तुना शाश्रौ १४,  
२७-२८, १; १५, १, १०; वौश्रौ;

-तुभिः शाश्रौ १५, १, ३; वौश्रौ;  
-तुम् शाश्रौ १०, १४-१८, २××;

आपश्रौ; -तुषु वौश्रौ २७, २ :  
१६; भाश्रौ ६, १, ६; -तू शाश्रौ

१४, ३८, १<sup>२</sup><sup>१</sup>; -तूस् शाश्रौ १४,  
६९, २; ७५, २××; आपश्रौ;

-तूनाम् वौश्रौ ७, ४ : ६<sup>१</sup>××;

वाधुश्रौ ३, ९२ : ९; -तोः  
वौश्रौ २, ३ : १५; १८, १३ :  
५; १३; वाधुश्रौ; -तौ हिश्रौ  
१७, २, ५९<sup>१</sup>; -त्वोः वैश्रौ  
४, १ : २.

यज्ञ-क्रम- -मः वैताश्रौ ४३,  
४५

यज्ञ-गत- -तौ काघ २७५ : ८.  
यज्ञ-नाम्य<sup>३</sup>- -०म्य विघ २८,  
५६.

यज्ञ-गाथा- -था आश्रौ २, १२,  
६; ५, ५, २१; ८, १३, ३१; शाश्रौ.

यज्ञ-ज्ञ- -ज्ञाः कप्र १, ५, ३; या  
११, १८.

यज्ञ-तति- -तिः शौच ४, १०४.

यज्ञ-तन्<sup>१</sup>- -तूः आपश्रौ १२,  
१, ३; १४, १७, ३; १७, ६, ३;  
वौश्रौ; -तूभिः वैताश्रौ १६, ५;  
-तूस् वैश्रौ १५, १ : १०; -न्वा  
वैश्रौ १५, १ : १०; ११.

यज्ञ-तन्त्र- -न्त्रे वाघ १, ३१;  
आपघ २, ११, १९; हिघ २, ४,  
३४.

यज्ञ-तपस्- -पसोः निस् १०,  
८ : २४.

†यज्ञ-तुर<sup>१</sup>- >याज्ञतुर<sup>१</sup>- -रः  
शाश्रौ १६, ९, ८; -रे शाश्रौ  
१६, ९, १०.

यज्ञदत्त- (>याज्ञदत्तक- पा.)  
पाग ४, २, ८०.

यज्ञ-दान-यु(क्त>)क्ता- -क्ताः  
काश्रौ २०, २, ७.

यज्ञ-द्वैवता-> °व(त्य>)व्या-  
-व्या शुअ १, ५४९; २, ३०३.

a) तस्येदमाद्यर्थे ङप् प्र. । b) यज्ञे इति कश्चन मूको. । c) कस. । d) द्वस. । ष्दे इति केचन  
मूको. । e) विप., नाप. (याजक-) । तस्येदमाद्यर्थे प्र. । f) व्यप. । g) =याज्ञिकी- । h) पाभे. पृ ११२५  
e द्र. । i) पस.>वस. । j) वैप १ द्र. । k) पाभे. पृ १९९८ l द्र. । l) सपा. आपश्रौ २२, ६, १४ क्तौ  
इति पाभे. । m) =विष्णु- । n) वैप २, ३खं. द्र. ।

यज्ञ-देवत- > त्त-विश्व<sup>a</sup>-  
 -श्वान् वैगृ १, १३ : २; ३; वैध  
 १, ६, ४; -ऋभ्यः वैगृ १, १५ :  
 १४; १७; वैध १, ६, ४.  
 यज्ञ-देवत<sup>b</sup> - त्तम् वैगृ ३, १६ :  
 ६; शुभ्र १, २१६.  
 यज्ञ-नामन्- -म या १, ८;  
 -मानि निघ ३, १७; या ३, १९.  
 यज्ञ-निघन<sup>c</sup> - -न विघ ९८,  
 ५७.  
 ऋयज्ञ-नी- -नियम्<sup>d</sup> वीश्रौ १,  
 ७ : १२; १३ : ३५; -नीः भाश्रौ  
 ९, १९, ३; -न्यम् शाश्रौ ४, ८,  
 ३<sup>e</sup>; -न्योः या ७, ३०.  
 ऋयज्ञ-वति<sup>e</sup> - पाग ४, १, ८४४;  
 -तये शाश्रौ १०, १५, ६;  
 आपश्रौ १२, २२, ९<sup>f</sup>; वीश्रौ<sup>f</sup>  
 ७, १३ : २८; ३०-३४; हिश्रौ ८,  
 ७, १९<sup>g</sup>; अय; -तिः आश्रौ  
 १, १२, ३४; शाश्रौ ४, ११, ४;  
 १३, ३<sup>h</sup>; काश्रौ ३, ८, २६<sup>h</sup>;  
 आपश्रौ १, १३, ११××; ४,  
 १३, ९<sup>i</sup>; ७, १४, २<sup>i</sup>; वीश्रौ १,  
 ९ : १४; ३, २० : ९<sup>j</sup>××; ६ :  
 ६<sup>k</sup>; ७, ३ : २६<sup>k</sup>; भाश्रौ<sup>l</sup> ४,  
 १९, ८; ७, ११, ३; माश्रौ<sup>l</sup>  
 १, ४, ३, ५; ८, ३, १२;  
 वाश्रौ<sup>l</sup> १, १, ४, १४; ६, ४, १९;  
 वैश्रौ ७, १२ : ३<sup>m</sup>; हिश्रौ<sup>l</sup> ४, ३,  
 २५; ६, ४, ११; वैताश्रौ ४,  
 २१<sup>n</sup>; मैत्र १६<sup>n</sup>; -तिना  
 आश्रौ १४, २६, १; हिश्रौ १५,  
 ६, २९; -तिम् आश्रौ १, ७,

७; १३, ६××; शाश्रौ; -०त्ते  
 वीश्रौ ४, १० : २३<sup>o</sup>; ५, ४ : २२<sup>o</sup>;  
 ८, १८ : ९<sup>o</sup>; २० : ९; १७, ३७ :  
 १०<sup>o</sup>××; भाश्रौ ७, २२, १७<sup>o</sup>;  
 वैश्रौ; -तेः वीश्रौ १, १५ : २२;  
 वाश्रौ १, ६, १, २३; -तौ आश्रौ  
 ३, ११, २; शाश्रौ।

यज्ञपत्नी- -त्नी भाश्रौ  
 ९, १९, ३<sup>p</sup>।

याज्ञपत- पा ४, १, ८४.

यज्ञपति-वत् मीसू १०, ४,  
 ५०.

यज्ञ-पथ- -थम् शाश्रौ १६, १०, ८.

यज्ञ-पद्- > ष्पदी<sup>q</sup> - -दी अञ  
 १०, १३<sup>q</sup>।

यज्ञ-परिभोजन<sup>r</sup> - -नम् वीश्रौ  
 १२, ५ : ३.

यज्ञ-परुस्- -रुः वीश्रौ २९,  
 १० : १२<sup>r</sup>; -रुषा वीश्रौ १९,  
 २ : ११.

यज्ञ-पा- -पाः वैताश्रौ ३७, २.

यज्ञ-पात्र- -त्राणाम् अय २३, १,  
 १; विघ २३, १०; -त्राणि शाश्रौ  
 ५, १४, ५; काश्रौ; -त्रेषु लाश्रौ  
 ८, ८, ३५; अय २३, १४, २; -त्रैः  
 वैश्रौ २१, ९ : ९; लाश्रौ।

यज्ञपात्रा (त्र-आ)युध-विभू-  
 पित- -तः कप्र ३, २, १६.

यज्ञ-पारव- > ष्व-हीत्रक<sup>s</sup>-  
 -कम् चव्यू २ : ३१.

यज्ञ-पुच्छ<sup>t</sup> - -च्छम् आश्रौ ६,  
 ११, २; वीश्रौ २५, २६ : १६;  
 २६, ३२ : २१; ३३ : १०; लाश्रौ

९, ५, ४; -च्छानि वीश्रौ २६,  
 १२ : १२.

यज्ञ-पुरुष<sup>u</sup> - -षः शुभ्र ३, ३;  
 ७०; -षम् वैगृ ४, १२ : ११.

यज्ञपुरुष-देवता- > त्त्य-  
 -त्यः शुभ्र २, ३२४.

यज्ञ-पूत- -तः विघ ८३, १०.

यज्ञ-प्रत्यवहार- -रेण निस् ८,  
 ४ : ३५.

यज्ञ-प्रत्युक्त- -क्तम् मीसू ९, १,  
 ३.

यज्ञ-प्रयोजन- -नम् मीसू ९, १,  
 १९.

यज्ञ-प्रवा(द)दा<sup>v</sup> - -दाः  
 निस् २, ११ : ९.

यज्ञ-प्रसारणी-काल- -ले वीश्रौ  
 २८, ११ : ८.

यज्ञ-प्रायश्चित्त- -त्ते वैगृ ३, ६ :  
 ६.

ऋयज्ञ-प्री<sup>w</sup> - -प्रीः आश्रौ २, १२,  
 ५; ५, १०, ४; शाश्रौ ७, १०, ९.

यज्ञ-फल- -लम् वैगृ ५, ८ : ९;  
 अय १३, ५, १; शंघ १२४.

यज्ञ-वलि-होम-जल-पुष्पा  
 (प-२आ)घ- -घैः वैध १, ४, ४.

यज्ञ-भाग- -गम् या १४, ३०.  
 यज्ञभाग-विवर्जित- -ताः

गौपि २, ४, १८.

यज्ञभाग-हर<sup>x</sup> - -०२ विघ  
 ९८, ६६.

यज्ञ-भाण्ड- -ण्डम् वैगृ ५, ३ :  
 २; -ण्डानि वैगृ ५, २ : ७.

यज्ञभूतिक- -कैः वाग्वि २,

a) वा. उप. उत्तरवर्तिना देव- इत्यनेन संबद्धं द्र. । b) वस. । c) = विष्णु- । d) पामि.  
 वै १. २५५२ a द्र. । e) वैप १ द्र. । f) तपा. मै १, ३, १२ यज्ञपतौ इति पामि. । g) पामि वैप १,  
 २५३९ h द्र. । h) पामि. वैप १, २५३९ g द्र. । i) ऋः इति पाठः ? वनि. शोषः (तु. शौ १०, १०, ६) ।  
 j) उप. = [यज्ञोपकरण-] दर्भादि- । k) = परिशिष्ट-द्वय- । l) वैप २, ३३. द्र. । m) = विष्णु- ऋषि-विशेष-  
 (शुभ्र. ) ।

६, ५ : १६<sup>a</sup>.

यञ्-भ्रेप- -पः<sup>b</sup> वीथौ २७, २ :  
३; ४ : ५; २९, ४ : १२; वैथौ  
२०, २५ : ८; हिथौ १५, ८, ३३;  
-पम् वीथौ ३, १४ : २.

यञ्-मनस्<sup>c</sup>- -नाः आथौ १,  
१२, ३०.

यञ्-मय- -यम् वाधूथौ २,  
१६ : ५.

यञ्-मह<sup>d</sup>- -हे सु १२, ३.

यञ्-मुख- -खम् ऋथौ ३, १७ :  
२; ५; ९ × ५; निसू ३, १ : ६; -खस्य  
शांथौ १६, २०, १४; -खात्  
निसू ३, ३ : २१ ऋ; -खे शांथौ  
१४, ३१, ४; वीथौ ; -ऋखेन  
आपथौ ५, ६, १; वीथौ.

यञ्-मुष्<sup>e</sup>- -ऋमुपः वीथौ १४  
२१ : ३; १० × ५; वीथु ४, ४, १.

यञ्-मूर्ति<sup>f</sup>- -०त्ते विध १, ५२.

यञ्-यदास<sup>g</sup>- -सम् आपथौ ११,  
१, ४; -ऋखेन आपथौ १२, २९.  
१; १६, १, ६; माथौ.

यञ्-याजिन्- -जी विध ३, ७८.

यञ्-योग- -गेन वैथौ ४, ६ :  
१७.

यञ्-योग<sup>h</sup>- -०ग विध १८,  
५५.

यञ्-रूप- -पम् वीथौ २३,  
१७ : ३.

यञ्-रूप-स्यूत<sup>i</sup>- -त्तम् काथौ  
१५, ५, ११.

यञ्-ज्ञ-ऋत्ते- -त्ते अत्र ८, १० ऋ.

यञ्-लक्ष(ण>)णा<sup>j</sup>- -णा अप

२१, २, ५.

यञ्-लोप- -पः हिपि २१ : ३ ऋ.

यञ्-वज्र- -ज्रम् वाधूथौ ४,  
६३ : १; ८० : २; -ज्रेण वाधूथौ  
४, ८० : ३.

यञ्-वराह- -हेण विध १, १२.

यञ्-वल्क<sup>k</sup>- -पाग ४, १, १०५;  
२, १११; -ल्काः<sup>l</sup> वीथौप्र ३१ :  
५.

याञ्जवल्क्य- पा ४, १, १०५;  
पावाग ४, २, ६६. -ल्क्यः शुभ्र  
१, १; -ल्क्यम् शंघ ११६ :  
४२; वीध २, ५, २७ ऋ<sup>m</sup>;  
-ल्क्याय वीथु ३, ९, ६ ऋ<sup>n</sup>;  
-ल्क्येन याशि १, १९; २, १८;  
११७.

याञ्जवल्क- पा ४, २,  
१११.

याञ्जवल्कीय- -यम् शुभ्र  
४, १६७.

याञ्जवल्क्या(ल्क्य-आ)-  
दि- -दिभ्यः पावा ४, ३, १०५.

यञ्-वाद्<sup>o</sup>- -दान् अप ६८, १,  
१, ३५.

यञ्-वास्तु<sup>p</sup>- -स्तु वीथौ १४,  
१९ : १३; २६, ७ : १३; आग्निगृ  
२, ५, ६ : २३; गोथ<sup>q</sup> १, ८, २५;  
२८; द्राथ २, १, २७<sup>r</sup>; कौस;  
-स्तुनि कप्र २, ९, २५; -स्तौ  
वीथौ १४, ५ : ३६ ऋ.

यञ्जवास्तु-रूप<sup>s</sup>- -पम् वीथौ  
१७, ११ : १३.

यञ्जवास्त्व(स्तु-अ)न्त- -न्ते

कप्र १, ८, १०.

यञ्-वाह<sup>t</sup>- -हानाम् वीथौप्र  
५१ : १; वैध ४, ८, ३.

याञ्जवाह- -०ह वीथौप्र  
५१ : १; वैध ४, ८, ३.

यञ्जवाह-वत् वीथौप्र ५१ :  
२; वैध ४, ८, ३.

ऋयञ्जवाहस्<sup>u</sup>- -हसः वीथौ ५ :  
७ : १२<sup>v</sup>; -०हसः वैथौ २०,  
३८ : ७; हिथौ १५, ८, २५;  
-हसत् वीथौ ६, ७ : ८<sup>w</sup>;  
-०हसा आपथौ २१, ७, १६;  
हिथौ १६, ३, ३५; माथौ २, ४,  
२, ११; वाथौ ३, २, २, १.

यञ्-विद्<sup>x</sup>- -विद्ः कप्र ३, ६, ३;  
अप ५३, २, ४; -विद्धिः कप्र  
२, १०, १६.

यञ्-विधि- -धिः अप २२, ७, १.

यञ्-विभ्रष्ट<sup>y</sup>- -ष्टः आपथौ २२,  
६, १४; वीथौ १३, २६ : १ ऋ;  
हिथौ १७, २, ५९; २२, ४, ७;  
-ष्टम् आपथौ १४, १४, ११;  
-ष्टय काथौ २२, ४, ३२; हिथौ  
२२, ४, ७; कुसू १, ४ : २६;  
-ष्टे कुसू १, ८ : ३०.

यञ्-विलोप- -पः निसू २, ६ :  
३; गीपि २, ७, ३.

यञ्-विवर्ध(न>)नी- -नी अप  
१८, १, ७.

यञ्-विवाह- -हयोः गोथ ४,  
१०, २६<sup>r</sup>; द्राथ ४, ४, २६<sup>r</sup>; गीध  
५, ३०.

यञ्-विष्णु- -ष्णू अप्राय ३, ४.

a) पाठः ? भूतियञ्जकैः वा भूतयञ्जकैः वेति शोधः संभाव्येत (तु. सप्र. वीथु २, ९, १५ भूतयज्ञेन इति पांभ.) ।

b) पांभे. पृ १८८५ j द्र. । c) वस. । d) उप. = उत्सव- । e) वैप १ द्र. । f) = विष्णु । g) विप.  
(वस्त्र-). वस. पूष. = सुक्लुवादि-चिह- । h) = ऋपि-विशेष- । i) बहु. < याञ्जवल्क्य- । j) परस्परं पांभे. ।  
k) वस. अणन्तम् । l) = कर्म-विशेष- । m) नाप. । वस. । n) पांभे. वैप १, २५५३ m द्र. । o) पांभे.  
वैप १, २५५३ m द्र. । p) उप. < विद् [ज्ञाने] ।

यज्ञ-वृक्ष- -ज्ञः अय २३, १, २;  
-ज्ञाः अय २३, ६, ५.

यज्ञवृक्ष-ज-वल्कल- -लैः  
अय २२, ७, २.

यज्ञवृक्ष-मय- -मैः अय २६,  
४, ६.

यज्ञ-वृष- -वृषः या १२, ३३.

यज्ञ-वेदास- -सम् वौश्रौ १४,  
१९: ३१; १७, ११: १३.

यज्ञवोदवे- -नित् १, ६: २३.

यज्ञ-शरीर- -रम् वौश्रौ २९, ४:  
२६.

यज्ञ-शर्मन्- -र्मणः आमिग ३,  
३, १: ३<sup>३</sup>: ४-६.

यज्ञ-शिष्ट- -ष्टम् वैष २, १५, ६.

यज्ञशिष्टा (ष्ट-अ) शन- -नम्  
विष ६७, ४३.

यज्ञ-शेष- -षम् द्राश्रौ १५, ३,  
२०; लाश्रौ ५, १२, ४.

यज्ञ-श्रेष्ठ- -ष्टौ कौसू ७३, १७<sup>३</sup>.

यज्ञ-संयोग- -गात् या ९, ११;  
मीसू २, ३, ३; -नो पा ३, २,  
१३२; ४, १, ३३; -गेन या १०,  
२१.

यज्ञ-संसिद्धि- -द्धिम् गोगृ १, ६,  
१७.

यज्ञ-संस्था- -स्थाः शांगृ १, १,  
१५; -स्याम् हिश्रौ १७, ३, २३.

यज्ञ-संकर- -रम् अय ७२, ४, २.

यज्ञ-समाप्त- -प्तः नित् १०,  
८: ७.

यज्ञसमाप्त-त्व- -त्वात् नित्  
१०, ८: १७.

यज्ञ-समृद्धि- -द्धये आमिग २,

६, ५: ९; वौगृ २, ९, ११; भागृ  
३, १५: १८; -द्धिम् आश्रौ १०,  
८, ३; -द्धीः वौश्रौ १, २१: ११;  
वौगृ ४, ९, ६.

यज्ञ-संपादिन्- -दिनः या ९,  
३७; -दिनाम् या ७, २७.

यज्ञ-संपूर्ण- -काम- -मः अय ७,  
९७.

यज्ञ-संप्रदाय- -यम् भाश्रौ ३,  
१५, ६; हिश्रौ १०, ८, ३.

यज्ञ-संबन्धि(न्>)नी- -नीम्  
अप्राय ६, ८.

यज्ञ-साधन- -नम्<sup>८</sup> आपश्रौ  
१७, २२, १; हिश्रौ १२, ६, २६<sup>१</sup>.

यज्ञ-सामान्य- -न्यात् नित् ६,  
७: ४६.

यज्ञ-सारथि- -थि जैश्रौ २५:  
१; जैश्रौका २०५; द्राश्रौ २, २,  
४३; लाश्रौ १, ६, ४०.

यज्ञ-सिद्धि- -द्धये वौश्रौ २१,  
१०: ८; वृदे ५, ५२.

यज्ञ-सेन- -नस्य चाअ ३९:  
१८.

यज्ञसेन- -नः वाधूश्रौ ४,  
३७: १; ६.

यज्ञसेन- > णी- -नी  
आपश्रौ १७, २६, ९<sup>३</sup>; -नीनाम्  
वौश्रौ २२, ८: १९; -नीम्  
आपश्रौ १७, ४, ९; हिश्रौ १२,  
१, ४०; -न्या वैश्रौ १२, ५: २.

यज्ञ-सोमैक-शौच- -चम् शंष  
१६७.

यज्ञ-स्वप्न- -प्नाः वौश्रौप्र  
१७: १४.

यज्ञ-स्तुति- -तिः शुअ २, ३२१-  
यज्ञ-स्य- -त्विज्- -त्विजे  
विष २४, २०.

यज्ञ-त्यान- -नम् नित् ७, ६:  
६; -नानि नित् २, ५: १; -ने  
नित् ७, १२: ९; ८, १: १४<sup>३</sup>.

यज्ञ-हन- -हनः आपश्रौ ४, ६,  
४<sup>३</sup>; १४, १०; ७, ७, २; वौश्रौ.

यज्ञ-हुत्- -हुताम् विष ९९,  
१४<sup>६</sup>.

यज्ञ-हेतु-त्व- -त्वात् नीत् ९,  
४, ५४.

यज्ञा(ज्ञ-आख्या>)स्य-  
-स्येभ्यः पा ५, १, ९५.

यज्ञा(ज्ञ-अ)गार- -रेषु शाश्रौ ५,  
१४, १; -रैः शाश्रौ १८, २४,  
१४.

यज्ञा(ज्ञ-अ)गिनसाधन-वादि-  
(न्>)नी- -न्यः शुअ २,  
२९५.

यज्ञा(ज्ञ-अ)ज्ञ- -ज्ञम् कौसू २,  
२८; या ७, ४; १४, १; -ज्ञस्य  
भाश्रौ ६, १५, ७; -ज्ञानि आश्रौ  
३, १, १९; काश्रौ; -ज्ञे भाश्रौ १,  
२, ५; पा ७, ३, ६२; मीसू ४, ३,  
१८; -ज्ञेन आपश्रौ २४, २,  
१४; भाश्रौ १, १, १५<sup>३</sup>; वाश्रौ;  
-ज्ञेभ्यः वौष १, ७, ११; -ज्ञेषु  
हिश्रौ ६, १, ३; ६; -ज्ञैः द्राश्रौ  
१, २, २१; लाश्रौ १, २, १५;  
द्राग १, १, २७.

यज्ञाज्ञ-काम- -मम्  
आपश्रौ २४, ४, ११; वौश्रौ २,  
१: २.

a) वैष १ द. । b) पाठः? ङम् वो? इति द्विपदः शोधः (तु. भाष.) । c) व्यप. । d) सज. ।  
e) पाठे. वैष १, २५५४ ० द. । f) ष्वयम् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ.) । g) = ज्ञान-विशेष- ।  
h) विष. (चित्ति-) । दृष्टार्थे अज् प्र. । i) सपा. हिश्रौ ६, २, १५ यानुधानाः इति पाठे. । j) = ऋत्विग्- ।  
k) ऋत्विगान् इति जीसं. ।

यज्ञाङ्ग-कार्य- -यै अप २३,  
७, १.

†यज्ञाङ्गा(ङ्-आ)दि- -दौ  
आपश्रौ २४, ४, ११; वौश्रौ २,  
१ : २.

यज्ञा(ङ्-आ)त्मन्<sup>a</sup>- -त्मने वैष  
३, १०, ४†.

यज्ञा(ङ्-आ)दि- -दिपु वृदे ८,  
१३५.

यज्ञा(ङ्-अ)धिक<sup>b</sup>- -काय  
आमिष्ट २, ७, १० : १४.

यज्ञा(ङ्-अ)धिगम- -मे वौश्रौ  
२४, १३ : २.

यज्ञा(ङ्-अ)न्त<sup>b</sup>- -न्तेन पाठ १,  
१०, २.

यज्ञा(ङ्-अ)न्वारम्भ- -म्भेण  
वैश्रौ १२, १० : ११<sup>c</sup>.

यज्ञा(ङ्-अ)पचार- -रः भाश्रौ  
१, १७, ३.

यज्ञा(ङ्-आ)पत्य (ति-अ)र्थ-  
-र्थम् वैष्ट ३, २ : ७.

यज्ञा(ङ्-अ)भिधान- -नम् मीसू  
८, ४, १.

यज्ञा(ङ्-अ)भिपरीत- -तः वौश्रौ  
२४, ३७ : १७.

✓यज्ञाय > यज्ञायत्- -यते  
ऋप्रा ९, २३†.

यज्ञायज्ञिय<sup>d</sup>- -यम् काश्रौ  
१०, ७, १; १८, ३, २; आपश्रौ;  
वौश्रौ १०, १५ : ७†<sup>e</sup>; कौष्ट  
२, १४, ११†<sup>e</sup>; -यस्य आपश्रौ  
१३, १५, ३; वौश्रौ; -याय  
अत्र १५, ३†; -ये हिश्रौ ३,  
४, २२; ३८; १०, ५, १०;  
-येन आपश्रौ १३, १५, ५;

वौश्रौ ८, १४ : ३६; -यैः वैश्रौ  
१६, १८ : १३.

यज्ञायज्ञिय-स्तोत्र- -त्रम्  
वैश्रौ १६, १८ : ९.

यज्ञायज्ञिय-स्थान- -ने  
काश्रौ २२, ६, ५.

यज्ञायज्ञिय- -यम् शाश्रौ ६,  
३, ८†; ८, ६, १; १७, १२,  
१××; काष्ट; -यस्य आश्रौ ६,  
८, १२; ७, ५, ७; ८, ५, २; ६,  
२१; शाश्रौ; -यात् छसू १, ९ :  
१०; निसू ४, १० : १५;

-†याय<sup>f</sup> शाश्रौ १७, १३, ५;  
द्राश्रौ १०, ३, ६; लाश्रौ ३, ११,  
३; -ये आपश्रौ ५, ११, ६; १३,  
८; १५, ६; वैश्रौ १, १३ : ९;

लाश्रौ ७, ५, १२; -येन आश्रौ  
९, ६, ४; माश्रौ १, ५, ४, १५.

यज्ञायज्ञिय-कारिन्- -री छसू  
३, ९ : १; १२.

यज्ञायज्ञिय-गौरीविति-  
रथन्तर-वामदेव्य- -व्यानि  
निसू ४, ९ : १४.

यज्ञायज्ञिय-चतुर्थ<sup>b</sup>- -र्थेषु  
निसू ७, ८ : ८.

यज्ञायज्ञिय-धर्म- -र्मान्  
निसू २, ७ : २१.

यज्ञायज्ञिय-निधन<sup>b</sup>- -नम्  
क्षसू ३, १० : ४७; ४८; -ने  
लाश्रौ ६, १२, ६.

यज्ञायज्ञिय-प्रथमा- -मायाम्  
लाश्रौ ६, ८, १२.

यज्ञायज्ञिय-प्रवृत्ति- -तीनि  
लाश्रौ ६, ४, १.

यज्ञायज्ञिय-वृहत्- -हृती

द्राश्रौ ८, ३, १४; लाश्रौ ४, ७, २.

यज्ञायज्ञिय-मास- -से द्राश्रौ  
८, २, ३१; लाश्रौ ४, ६, २२.

यज्ञायज्ञिय-योनि- -नौ  
आश्रौ ९, ६, ८.

यज्ञायज्ञिय(य-ऋ)र्च्- -यर्क्षु  
लाश्रौ ६, ८, १२.

यज्ञायज्ञिय-सामन्- -म  
वैश्रौका २३.

यज्ञायज्ञिया(य-अ)नुरूप-  
-पः छसू २, ५ : १७; -पे निसू  
२, ७ : १२.

यज्ञा(ङ्-आ)यतन- -नम् कौसू  
१८, ३७.

यज्ञा(ङ्-आ)युध<sup>d</sup>- -वः वौश्रौ  
१८, ३५ : ७; -धानाम् वौश्रौ  
२४, २५ : १८†; -धानि आपश्रौ  
९, ११, १३; वौश्रौ; -धैः माश्रौ  
५, १, ५, ५९.

†यज्ञायुधिन्- -धी निसू  
२, ६ : ३५; वौषि १, ७ : २;  
हिपि ६ : ८; गौषि २, ७, ३५.

यज्ञा(ङ्-अ)रण्य- -ण्ये आपश्रौ  
१८, ७, ११†.

यज्ञा(ङ्-आ)र्ति- -र्तिम् हिश्रौ  
८, १, ५†.

यज्ञा(ङ्-अ)र्थ- -र्थः निसू २, १ :  
८; -र्थम् भाश्रौ १०, ९, ५;  
हिश्रौ; विध ५१, ६३†; -†र्थे  
आपश्रौ १०, १५, १६; वैश्रौ १२,  
४ : १४; आपध १, १८, २६;  
हिध १, ५, ९४; -र्थेन मीसू ९,  
१, १९; -र्थेषु विध ५१, ६५.

यज्ञार्थ-तत्त्व-वेत्तृ- -त्तारः  
ऋप ३, ७, १०.

a) = विष्णु- । b) विप. । वस. । c) प्रभेण इति पाठः? यनि. शोधः ( वृ. संस्कर्तुः टि. ) ।

d) वैष १ द्र. । e) पामे. वैष १, २५५४ h द्र. । f) पामे. वैष २, ३४. भद्राच एवा ५, १, २ टि. द्र. ।

g) \*र्थे इति जीसं. ।

यज्ञार्थ-स्त्व- त्वात् मीस्  
१०,६,३३.

यज्ञार्थ-हेतु- तुभिः अप  
२२,८,३.

यज्ञा (ज्ञ-अ)विक्षेप->पिन्<sup>a</sup>-  
-पी माण २,१४,२९<sup>क</sup>।

य(ज्ञ>)ज्ञा-साह<sup>क</sup>- साहम्  
ऋषा ९,३.

यज्ञिय,या<sup>क</sup>- पा, पावा ५, १,  
७१; -यः आश्रौ ३,१४, १३<sup>क</sup>;

आपश्रौ; -यम् शांश्रौ ८, २०,  
१<sup>क</sup>; आपश्रौ; -यस्य वौश्रौ

१३, १४ : ७<sup>क</sup>; लाश्रौ; -<sup>क</sup>या  
आश्रौ ३, १०, ६; आपश्रौ;

-याः शांश्रौ १८, १, २<sup>क</sup>;  
काश्रौ; -०याः आण ३, ५,

७<sup>क</sup>; कौण ३,७,१०<sup>क</sup>; शाण; या  
३, ८; -यात् वौपि २, ७, २;

-<sup>क</sup>यान् आश्रौ १,४,११; शांश्रौ;  
-<sup>क</sup>यानाम् शांश्रौ १७, ८, ७;

आपश्रौ; या ७, २७<sup>क</sup>; ११, १९;  
-याम् आपश्रौ ५, १, ४<sup>क</sup>; वौश्रौ;

-<sup>क</sup>याय शांश्रौ ८, २२, १; वौश्रौ  
९, १० : १६; हिश्रौ; -यायाम्

आण ४, ८, ११; -<sup>क</sup>यासः शांश्रौ  
६, १०, ६; कौण ५, ३, ३१; या ७,

२९; -<sup>क</sup>यासः आपश्रौ २४,  
१३, ३; वौश्रौ ३, २८ : १४; ६, २ :

२५<sup>क</sup>; हिश्रौ; -ये <sup>क</sup>आपश्रौ ५,  
१२, २; १३, ८; १५, ६ x x; वौश्रौ;

-येभ्यः शुषा ४, ७८<sup>क</sup>; -<sup>क</sup>यैः  
आश्रौ २, १, १७; ४, २, ३<sup>क</sup>;

आपश्रौ; वौश्रौ ६, ३० : ११<sup>क</sup>;  
काण ३०, ३<sup>क</sup>.

यज्ञिय-वृक्ष- -क्षस्य वैश्रौ

१२, ९ : १०.

यज्ञियवृक्ष-चमस- -सेषु  
गौपि २, ३, १४.

यज्ञियवृक्ष-दण्ड- -ण्डैः  
काश्रौ १५, ७, ५.

यज्ञियवृक्ष-शङ्कु- -ङ्कुः  
काश्रौ ७, ४, ८.

यज्ञीय- -यस्य द्राश्रौ ५, २, १;  
१०, ४, २; वाण ५, ४२.

यज्ञे(ज्ञ-इ)धम- -धमः साअ २,  
६९७; या ८, ५.

यज्ञे(ज्ञ-ई)श- -शम् वैश्रौ १७,  
६ : ३.

यज्ञे(ज्ञ-ई)धर- -राय वैष ३,  
१०, ४<sup>क</sup>.

यज्ञे(ज्ञ-इ)ष्टि-प्रारम्भ<sup>क</sup>- -म्भे  
वैश्रौ २०, ३ : १३.

यज्ञो(ज्ञ-उ)क्त-वृक्ष- -क्षाणाम्  
वैश्रौ ११, १० : १३.

यज्ञो(ज्ञ-उ)खा- -खा या १०,  
४५.

१यज्ञो(ज्ञ-उ)त्वत्ति- > ँच्यु-  
(त्ति-उ)पदेश<sup>क</sup>- -शे मीस् १२,  
१, ४२.

२यज्ञो(ज्ञ-उ)त्वत्ति<sup>क</sup>- -त्तौ हिश्रौ  
३, ८, ४५.

यज्ञो(ज्ञ-उ)न्नव- -नैः अप ६२,  
४, ४.

यज्ञो(ज्ञ-उ)पकरण- -णम् काश्रौ  
२४, ६, ९; -णानि वैश्रौ १५,  
२३ : २; लाश्रौ ८, ६, १.

यज्ञोपकरण-शेष- -यान्  
लाश्रौ १०, १७, १६.

यज्ञो(ज्ञ-उ)पवीत- -तम् वौश्रौ  
३, १० : १४ x x; भाश्रौ; कौण

२, ८, ७<sup>क</sup> x x; शाण २, २,  
३<sup>क</sup>; १३, ७ x x; आमिण १,  
१, १ : २२; ४, १ : १८ x x; पाणः  
२, २, ११<sup>क</sup>; वौण २, ५, ७<sup>क</sup>; <sup>क</sup>;  
११, ४८ x x; भाण १, २ : १२;  
३ : १४; २२ : ८; २, ७ : १ x x;  
वाण ५, ८; वैण २, ५ : १४<sup>क</sup>;  
हिण १, १, २२; गोण १, २,  
१; गौपि २, ३, २८; जैण १,  
१२ : ७२; द्राण १, १, ४; अण  
३७, १६, १; ४३, ३, १; वौष १,  
५, ५; वैष २, ९, २; -तस्य  
आमिण २, ७, ४ : ५; -तानि  
आपश्रौ ८, १५, १; १६, १५;  
वौश्रौ; -ते वाध १२, १४; वैष  
३, १, १; -तेन पाण २, २, ११<sup>क</sup>.

२, ८, ७<sup>क</sup> x x; शाण २, २,  
३<sup>क</sup>; १३, ७ x x; आमिण १,  
१, १ : २२; ४, १ : १८ x x; पाणः  
२, २, ११<sup>क</sup>; वौण २, ५, ७<sup>क</sup>; <sup>क</sup>;  
११, ४८ x x; भाण १, २ : १२;  
३ : १४; २२ : ८; २, ७ : १ x x;  
वाण ५, ८; वैण २, ५ : १४<sup>क</sup>;  
हिण १, १, २२; गोण १, २,  
१; गौपि २, ३, २८; जैण १,  
१२ : ७२; द्राण १, १, ४; अण  
३७, १६, १; ४३, ३, १; वौष १,  
५, ५; वैष २, ९, २; -तस्य  
आमिण २, ७, ४ : ५; -तानि  
आपश्रौ ८, १५, १; १६, १५;  
वौश्रौ; -ते वाध १२, १४; वैष  
३, १, १; -तेन पाण २, २, ११<sup>क</sup>.

यज्ञोपवीत-क- -कम् काणउ  
४६ : ९.

यज्ञोपवीत-प्राचीनावीत-  
-तयोः द्राश्रौ १३, १, १९; लाश्रौ  
५, २, १.

यज्ञोपवीत-मेखला(ला-अ)  
जिन-दण्ड- -ण्डान् वैष २, ११,  
६.

यज्ञोपवीत-विधि- -धिम्  
आमिण २, ४, ९ : १.

यज्ञोपवीत-शौच- -चे आश्रौ  
१, १, १०.

यज्ञोपवीता(त-आ)दि- -दि  
अप ३७, १६, १.

यज्ञोपवीतिन्- -तिनः काश्रौ  
५, ८, ३२; ९, १६; वैश्रौ; वौपि ३,  
४, १७; -तिनम् वौण २, ५, ८;  
जैण १, १२ : १२; -तिना आमिण  
३, ७, ४ : ३३; आपण; -तिनाम्

२, ८, ७<sup>क</sup> x x; शाण २, २,  
३<sup>क</sup>; १३, ७ x x; आमिण १,  
१, १ : २२; ४, १ : १८ x x; पाणः  
२, २, ११<sup>क</sup>; वौण २, ५, ७<sup>क</sup>; <sup>क</sup>;  
११, ४८ x x; भाण १, २ : १२;  
३ : १४; २२ : ८; २, ७ : १ x x;  
वाण ५, ८; वैण २, ५ : १४<sup>क</sup>;  
हिण १, १, २२; गोण १, २,  
१; गौपि २, ३, २८; जैण १,  
१२ : ७२; द्राण १, १, ४; अण  
३७, १६, १; ४३, ३, १; वौष १,  
५, ५; वैष २, ९, २; -तस्य  
आमिण २, ७, ४ : ५; -तानि  
आपश्रौ ८, १५, १; १६, १५;  
वौश्रौ; -ते वाध १२, १४; वैष  
३, १, १; -तेन पाण २, २, ११<sup>क</sup>.

यज्ञोपवीत-क- -कम् काणउ  
४६ : ९.

यज्ञोपवीत-प्राचीनावीत-  
-तयोः द्राश्रौ १३, १, १९; लाश्रौ  
५, २, १.

यज्ञोपवीत-मेखला(ला-अ)  
जिन-दण्ड- -ण्डान् वैष २, ११,  
६.

यज्ञोपवीत-विधि- -धिम्  
आमिण २, ४, ९ : १.

यज्ञोपवीत-शौच- -चे आश्रौ  
१, १, १०.

यज्ञोपवीता(त-आ)दि- -दि  
अप ३७, १६, १.

यज्ञोपवीतिन्- -तिनः काश्रौ  
५, ८, ३२; ९, १६; वैश्रौ; वौपि ३,  
४, १७; -तिनम् वौण २, ५, ८;  
जैण १, १२ : १२; -तिना आमिण  
३, ७, ४ : ३३; आपण; -तिनाम्

२, ८, ७<sup>क</sup> x x; शाण २, २,  
३<sup>क</sup>; १३, ७ x x; आमिण १,  
१, १ : २२; ४, १ : १८ x x; पाणः  
२, २, ११<sup>क</sup>; वौण २, ५, ७<sup>क</sup>; <sup>क</sup>;  
११, ४८ x x; भाण १, २ : १२;  
३ : १४; २२ : ८; २, ७ : १ x x;  
वाण ५, ८; वैण २, ५ : १४<sup>क</sup>;  
हिण १, १, २२; गोण १, २,  
१; गौपि २, ३, २८; जैण १,  
१२ : ७२; द्राण १, १, ४; अण  
३७, १६, १; ४३, ३, १; वौष १,  
५, ५; वैष २, ९, २; -तस्य  
आमिण २, ७, ४ : ५; -तानि  
आपश्रौ ८, १५, १; १६, १५;  
वौश्रौ; -ते वाध १२, १४; वैष  
३, १, १; -तेन पाण २, २, ११<sup>क</sup>.

यज्ञोपवीत-क- -कम् काणउ  
४६ : ९.

यज्ञोपवीत-प्राचीनावीत-  
-तयोः द्राश्रौ १३, १, १९; लाश्रौ  
५, २, १.

a) = द्वेव-विक्षेप-। b) षः इति मूले। c) वैष १ द्र.।  
e) पाभे. वैष १, २५४७ c द्र.। f) पाभे. वैष १, २५५६ a परि. च द्र.।  
h) मत्स्ये. का. > पञ.। i) उपदेश- =सर्मापदेश- इति भाष्यम्?। j) वस.।

d) पाभे. वैष १, २५५५ a द्र.।  
g) पाभे. वैष १, २०१० i द्र.।

कौसू ८२, १; -त्तो आश्रौ १, १,  
४; २, ६, १३; शाश्रौ; आश्रु ३,  
२, २; ७, ३; कौश्रु २, १, ३३;  
शांश्रु १, १, १४; ४, ९, ३; ११, २३;  
वैश्रु ६६ : १२; १४; आमिश्रु  
१, १, १: ३८; २, ३, २: ४; ४,  
९: २३××; बौश्रु २, ८, ३५;  
३, ४, ७; १३; बौषि २, ९,  
२१; ११, ८; भाश्रु ३, १४:  
१२; वैश्रु ५, ५: १७; हिश्रु १,  
२; ६; २, ७, २; १०, ७; हिषि  
११: १; गोश्रु १, २, २; जैश्रु १,  
४: २१; ६: ४××; द्राश्रु १,  
१, ७; कौसू १, ११; ८, १; ६७,  
१८××; अप ४४, ३, १; वाध  
१०, ३१; शंघ ११०; आपध १,  
६, १८; १५, १; २, १९, १२; हिघ  
१, २, ४१; ४, ६०; गौघ १, ३८.  
यज्ञोपवीतिनी-नीम्  
आमिश्रु १, ६, १: ११; गोश्रु २;  
१, १८.

यज्ञोपवीति-त्रिपर्यय-

-यम् काश्रौ ५, ९, २३.

यज्ञोपवीतो(त-उ)दकाचमन-  
ने द्राश्रौ १, २, २०; लाश्रौ १,  
२, १४; जैश्रु १, १: ५.

यज्ञ- (> याज्ञायनि- पा.) पाग  
४, १, १५४.

यज्यु<sup>b</sup>- पाठ ३, २०.

यज्वन्<sup>b</sup>- पा ३, २, १०३; -फँज्वनः  
अप १, ३७, १; अशां ६, ७; ७,  
१; -ज्वनाम् या १०, ८; -फँज्वने  
बौषि २, ८, ५; अश्रु ४, २१;  
-ज्वनोः वृदे ६, ७४; -फँज्वा  
शाश्रौ १२, २०, २; वाध ११,

४८; वृदे ६, ७३६; शैशि ६९;  
-ज्वानः विध ८, ८<sup>o</sup>.

फँयज्व(र>)री<sup>b</sup>-रीः आश्रौ ४,  
१५, २; शाश्रौ ६, ६, २; ७, १०,  
१२.

यष्टव्य-व्यः कप्र २, ९, १५;  
-व्यम् आपश्रौ ८, ५, २; बौश्रौ;  
-व्याः कप्र ३, ६, ९; अप ७०<sup>१</sup>,  
१९, २.

यष्टुम् आपश्रौ १४, ३२, ५१; बौश्रौ.

यष्टु- -फँष्टः<sup>d</sup> बौश्रौ १, १५: १४;  
भाश्रौ; -ष्टा जैश्रौका ११३;  
-ष्टारम् जैश्रौका ८६; हिषि  
१८: २४<sup>१</sup>; -ष्टुः जैश्रौका  
१६३; वैताश्रौ ४३, ४७; अप;  
-ष्ट्रा जैश्रौका १४.

यष्टु-त्तर-रः या ८, ८.

यष्टु-पत्नी-संयुक्त-क्तः जैश्रौका  
६६.

यष्टु-पद-क्रम<sup>e</sup>-माः जैश्रौका  
१२९.

याग<sup>f</sup>-नाः काश्रु ४४: २; ५; अप  
६७, ६, ६; -गम् काश्रु ४२:  
२१; अप ७०, २, ४; ५; ९, २;  
३; -गानाम् अप १९<sup>१</sup>, १, ३; -गे  
अप २६, १, ५; वाध ४, ७; विध  
५९, ११.

याग-ग<sup>h</sup>-गम् शंघ ३८८.

याग-स्थ-स्थम् शंघ ३८८;  
विध ५०, ७; -स्थस्य विध ३६,  
१.

याग-होमा(म-आ)दि-दिषु  
शुश्रु ४, १२७.

यागो(ग-उ)पनयन-योग्यता-  
रहित-तान् काश्रौसं ३०: ४.

याजक-पाग २, २, ९; ६, २, १५१;  
-कः बौध २, १, ३९; विध ५४,  
१६.

याजन-नम् कौश्रु ३, ११, ४४;  
शांश्रु ४, ११, १३; वाश्रु; वाध २,  
१४<sup>h</sup>; आपध २, १०, ४; -नात्  
अप २, ६, ५.

याजन-प्रतिग्रह-हौ विध २,  
११.

याजना(न-अ)ध्यापन-नात्  
वाध १, २२; २७, ९; बौध २,  
१, ६२; -नाभ्याम् ऋश्रु १, १, १.  
याजना(न-अ)ध्यापन-प्रतिग्रह-  
-हाः गौध ७, ४.

याजयितु-तारः वाधूश्रौ ४, ६४<sup>h</sup>:  
६; ८.

याजयित्वा काश्रौ २५, ८, १५;  
आपश्रौ.

याजयिष्यत्-ष्यन् वैश्रौ १२, १:  
११; जैश्रौ १: १९; आश्रु १,  
२३, १९; कौसू ४६, ४.

याजि-पाठ ४, १२५.

याजिन्-पा ३, २, ८५.

याज्य, ज्या<sup>b</sup>-तैप्रा ११, ३<sup>१</sup>; पा  
७, ३, ६६; -ज्यः द्राश्रौ १०, १,  
८; लाश्रौ १, १, ८; वाध १९,  
४४; शंघ ३०३, ३१७; हिघ  
१, ५, ११८; -ज्यम् आपश्रौ  
२१, १, ५; हिश्रौ १६, १, १५;  
शंघ ३०३<sup>२</sup>; वृदे ५, ५५; -ज्यया  
शाश्रौ २, ५, २; बौश्रौ; आमिश्रु  
२, ५, २: १३; ३५××; बौश्रु १, ६,  
१०; १०, ४××; -ज्या आश्रौ १,  
५, २९××; शाश्रौ; -ज्याः आश्रौ  
३, ७, ३; ५, ४, ७; ९, ११, २०;

a) = ऋषि-विशेष-। b) वैप १ द्र.। c) यज्वनः इति जीसं.। d) सपा. काठ १, १२ यथा इति  
पामे.। e) तु. जैश्रौ ११: २४-२६। f) = यज्ञ-। g) उप. < ✓गम्। h) य<sup>o</sup> इति पाठः? यनिः  
शोधः (तु. आपध.).। i) = याज्याऽनुवाक-।

शांश्रौ; -ज्यात् वाच ११, २;  
-ज्यानाम् शांश्रौ १, २, २; वैताश्रौ  
१९, ७; -ज्याभिः शांश्रौ १०,  
७, २; -ज्याभ्यः आश्रौ ६, ४, ९;  
-ज्याम् आश्रौ २, १६, १४××;  
आपश्रौ; -ज्यायाः आश्रौ १, ५,  
६; २, १५, १५; ३, ६, ८; शांश्रौ;  
-ज्यायाम् आपश्रौ २४, ४, १८;  
हिश्रौ २२, ४, १७; -ज्यायै काश्रौ  
६, ८, १६; आपश्रौ २४, १४, ३;  
वौश्रौ; -ज्यासु शांश्रौ १, १, ३९;  
७, ७, ६; तैषा ३, ११; -ज्ये  
आश्रौ १, ५, ३४; २, १२, ३××;  
शांश्रौ; -ज्यौ हिश्रौ २१, २, ४६.  
याज्या(ज्या-अ)दि- -दिः आश्रौ  
१, ५, ४.  
याज्या-निदर्शन- -नम् आश्रौ  
१, ५, २०.  
याज्या(ज्या-अ)नुवाक्या<sup>१</sup>- पाग  
६, २, ३७; -क्ययोः आश्रौ ४,  
१, ११; -क्या वाश्रौ ३, २, ८,  
१५<sup>१०</sup>; वैश्रौ २०, ३: १६; -क्याः  
आश्रौ १, ६, १××; काश्रौ; हिश्रौ  
२२, ५, २<sup>१०</sup>; -क्यानाम् आश्रौ  
४, ८, ११; -क्याभिः वौश्रौ १७,  
३६: ११××; वैश्रौ; -क्याभ्यः  
हिश्रौ १, १, ३६; -क्यासु काश्रौ  
१, ८, ९; आपश्रौ २४, २, ६;  
मीसू ६२, ४, ३; -क्ये आश्रौ १,  
५, ३६××; आपश्रौ.  
याज्यानुवाक्या-वत्- -वन्ति  
वाश्रौ १, १, १, ५१.  
याज्या(ज्या-अ)न्त- पावा ८,  
२, १०७; -न्तः माश्रौ ५, १, १,

११; पा ८, २, ९०; -न्तम्  
आश्रौ १, ५, ८; -न्ताः हिश्रौ  
२१, २, ३४; -न्ते शांश्रौ १, २,  
८; हिश्रौ २१, २, ३३<sup>३</sup>; ३६;  
-न्तेन शांश्रौ १, १, ४२.  
याज्या(ज्या-अ)न्त<sup>१</sup>- -न्तानि  
आश्रौ ५, १०, २१.  
याज्या(ज्या-अ)पनय- -ये मीसू  
३, ५, ४५.  
याज्या-पुरोनुवाक्या- -क्याः  
वौश्रौ १५, १७: १२××; हिश्रौ;  
-क्यानाम् शांश्रौ १, १७, १××;  
-क्याभ्याम् वौश्रौ २३, १: २७;  
३२××; -क्यासु वौश्रौ २७,  
१२: १३; २९, २: १४; -क्ये  
शांश्रौ १, १६, ८××; वौश्रौ.  
याज्यापुरोनुवाक्या-वत्-  
-वन्तः काश्रौ १, २, ६.  
याज्यापुरोनुवाक्यावती-  
-तीषु हिश्रौ २, २, ८.  
याज्यापुरोनुवाक्या-विप-  
यांस- -से वैश्रौ २१, १२: ६.  
याज्यापुरोनुवाक्या-संप्रैप-  
-पः हिश्रौ २, २, ४०; -पौ वैश्रौ  
६, ९: २.  
याज्या-पुरोरूच- -रूचोः मीसू  
२, १, १९.  
याज्या(ज्या-अ)चित्त- -तौ वृदे  
५, ६४.  
याज्या-लक्षण- -णानि शांश्रौ  
१, १७, १५.  
याज्या-वत् शांश्रौ ३, ७, ८; मीसू  
२, १, १३.  
याज्या-वत्- -वत्सु वाश्रौ १, १,

१, ५०; ५४.  
याज्या-वर्जम् आपश्रौ २४, १३,  
१२.  
याज्या-वपट्कार- -रयोः मीसू  
१२, ३, ३२.  
याज्या-शब्द- -ब्दः मीसू ३, २,  
१२.  
याज्या-संप्रैप- -पः वैश्रौ ६, ५:  
८; हिश्रौ २, २, २; ८, ६, ७;  
२१, २, ३५; -पस्य हिश्रौ ४, ३,  
३०; -पात् हिश्रौ २१, १, ७.  
याज्या-होम- -मान् वैताश्रौ २५,  
२.  
याज्यमान- -नः वाधूश्रौ ४, १०१:  
९.  
यायजूक- पा ३, २, १६६; -कम्  
भाच १, ११: १०.  
यजू-, -जत्- प्रम्. ✓यजू द.  
यिज्जे जैश्रौका ५३.  
यज्ञ- प्रम्. ✓यजू द.  
यिज्ञापयः<sup>१</sup> वौश्रौ प्र ९: १.  
यिज्ञादेतसम्<sup>१</sup> शांश्रौ १२, १९, २.  
यज्ञायज्ञिय-, -ज्ञीय- प्रम्. ✓यजू द.  
यिज्ञायुरनुसंचर<sup>१</sup>- -रान् आपश्रौ  
१, ६, १; माश्रौ १, ५, १३; वाश्रौ  
१, २, १, ३२; हिश्रौ १, २, ६६.  
यज्ञिय-, यज्ञीय- प्रम्. ✓यजू द.  
यत्त्व<sup>१</sup>- -प्वम् लाश्रौ १०, ५, ७; निस्  
१०, ३: ३४;  
यत्त्वा(प्व-अ)पत्य- -त्ययोः लाश्रौ  
७, ३, १३; -त्ये लाश्रौ ७, ३,  
११.  
✓यत्(यघा.)पाघा.भ्या. आत्म. प्रयत्ने;  
चुरा. उभ. निकारोपस्कारयोः,

a) वैप १ द. । b) सकृत् पाठमुद्धृतः । उपक्षेपत्वेन उत्तरा इत्यनेनाऽऽन्वितम् एकवचनं द. (तु. काशीकरः) । c) याज्या इति लैवि. पाठः ? यनि. शोषः (तु. सा [तै २, ५, १२, १]) । d) वस. । e) भूयात् पाप्मे. संस्तरुः टि. द. । f) शोषः वैप १, १८६५ h, २५४९ b द. । g) वैप २, ३३. द. । h) =साम-विशेष- ।



कृतते निघ २, १४<sup>३</sup>; या ७, २२<sup>६</sup>; २३<sup>६</sup>; यतन्ते या ४, १३<sup>१</sup>; कृतस्व काश्रौ १०, २, १७; वौश्रौ ८, ६: १७; १०, २९: १३; वैश्रौ; यतेत शंघ २५१; बौघ २, ३, ५१; गौघ ९, ६५; वृदे २, ११९.

यातयते अप ४८, १९<sup>१०</sup>; कृतयति आश्रौ ३, ११, २२<sup>६</sup>; आपश्रौ ६, २६, ७<sup>६</sup>; माश्रौ ३, २, ८<sup>६</sup>; अप्राय ४, ३<sup>२६</sup>; बौघ २, ४, ११<sup>६</sup>; निघ २, १९<sup>१०</sup>; या १०, २२<sup>६</sup>; यातये वौश्रौ १८, १३: ५.

कृतमान, ना- ना: आमिष्ट ३, ७, १: ८; वौपि १, १७: ८; बौघ २, २, ४८; -ने आश्रौ ४, ९, ४; हिपि १७: १७.

यतिप्यमाण- ण: वौश्रौ २३, २: ५; बौघ १, ४, १५<sup>१०</sup>.

यत्- पा ३, ३, ९०; -त्: वौश्रौप्र ५४: १७; -त्म् कौष्ट ३, १२, ३१; वैघ १, ११, १४; -त्वात् बौघ १, १०, ३१; विघ ८२, ३; वैघ; -त्नेन वैश्रौ १२, १: ३; जैश्रौका.

यत्-त्स (: ) हिपि १७: ५; अप ५, १, ३; १९<sup>३</sup>, ४, १; शंघ.

यत्-वत्- वान् अप २४, २, २; बौघ २, ९, ११.

यातना-> ना-क्षम- मै: विघ ४३, ४४.

यातना-दु:ख- स्म विघ ६४,

४२.

यातना-स्थान- ने विघ २०, ३५.

यत्- ✓इ द्र.

शयत्- ✓यच्छ द्र.

शयत्, ता<sup>६</sup>- -त: कृतप ४८, ७०<sup>६</sup>; १०४<sup>६</sup>; -तायै कौस् ३९, ९<sup>३</sup>.

यतम-, यतर- यद्- द्र.

कृत(व्य>)व्या<sup>६</sup>- न्या आपश्रौ १९, २५, ५; वौश्रौ १३, ३४: ४; हिश्रौ २२, ५, १७.

यत्स (: ) यद्- द्र.

यत्सुच्-, यतात्मन्- ✓यच्छ द्र.

शयति<sup>१</sup>- पाठ ४, ११८; -ति: आश्रौ ६, ३, १<sup>१०</sup>; शाश्रौ ९, ५, २<sup>१०</sup>; आमिष्ट; -कृतिभि: आपश्रौ ४, १२, १०; भाश्रौ ४, १८, ७; हिश्रौ ६, ३, २०; -तिभ्य: ऋप्रा ७, ४६<sup>१</sup>; -तिम् आमिष्ट ३, १०, ४: ५; ३१; -तीन् शाश्रौ १४, ५०, १<sup>१०</sup>; गौपि २, २, ९; वाध ११, १७; -तीनाम् आमिष्ट ३, १०, ४: २; वाध; -ते: आमिष्ट २, ७, ११: १२; ३, १०, ४: २३.

यति-चान्द्रायण- ण: विघ ४७, ७; -णम् बौघ ४, ५, १९.

यति-धर्मन्- मर् शंघ १३३.

यति-पात्र- त्राणाम् शंघ १६७.

यति-संस्कार- रम् आमिष्ट ३, १०, ४: ३.

?यतिसमयपात्र- त्राणाम् शंघ १६७.

यति-सांतपन्- नम् शंघ ४४५.

यत्(ति-अ)तिथि-वृत्तिन्- -तिभ्य:

बौघ ३, ३, ५-७.

शयति- यद्- द्र.

यती- ✓इ द्र.

यत्कर- यद्- द्र.

यत्र यद्- द्र.

?यत्रस्यते अप ४८, ९<sup>१</sup>.

?यत्रास्मन्नत: अप ४८, ११६<sup>१</sup>.

यत्वा ✓यच्छ द्र.

यथा प्रम्. यद्- द्र.

यद्<sup>६</sup>->शय, या- कृत: आश्रौ १, ३, २२; ६, १<sup>३</sup>; शाश्रौ; यम् कृतआश्रौ १, ३, २२; ४, ६, ३; ५, ५, १९; शाश्रौ; आमिष्ट ३, १०, ५: १०<sup>१०</sup>; यम्शयम् वौश्रौ २५, ३०: ५; अप ३०<sup>३</sup>, २, ५; ७०, १२, ६; बौघ २, ६, १०<sup>१</sup>; यया आपश्रौ २०, १६, २०; हिश्रौ; ययो: भाश्रौ २, ५, २, २५; क्षुस् ३, १: ८; अप्राय ६, ९<sup>१</sup>; या ९, ४२<sup>१</sup>; यस्मात् आश्रौ ३, ११, १; वैश्रौ; अप्राय ५, ६<sup>१०</sup>; यस्मिन् आश्रौ २, १, १४; ३, १३, ११; आपश्रौ; यस्मिन्शयस्मिन् विघ ८, ४०; आज्यो ११, ६; यस्मै आश्रौ २, १०, ९<sup>१</sup>; लाश्रौ ८, ६, २८; पाण्डु; यस्य कृतआश्रौ २, ११, १४; ३, ८, १<sup>३</sup>; आपश्रौ; पावा १, १, ४४×४; यस्यशयस्य शांघ २, ७, १८; अप ७०, ३, ३; यस्या: आपश्रौ ४, १३, ४<sup>१</sup>; वाश्रौ १, १, ४, १०; वैश्रौ; यस्याम् आपश्रौ १, १३, ४<sup>१</sup>; हिश्रौ; यस्याम्शयस्याम्

a) धा. गतौ वृत्ति: । b) धा. हिसायां वृत्ति: । c) परस्परं पाभे. । d) पाभे. वैप १, २५५७ h द्र. । e) तु. मैस्. । f) विप. । उस. । g) वप्रा. । व्यु. ? । h) पुरातन-नामन्- । i) =वज्र- । j) =ओपधि-विशेष- । k) वैप १ द्र. । l) वैप १, २५५८ d द्र. । m) पाभे. वैप १, २५५८ h द्र. । n) वैप १, २५५८ k द्र. । o) =वत्-विशेष- । p) पाठ: ? अयम् इति शोध: (तु. सपा. आपश्रौ ९, ११, २३) । q) सङ्घत् सपा. ऋ ५, ७, ४ आपश्रौ १४, २९, ३ सु स्मा इति पाभे. ।

अप ६४, २, ६; यत्स्य कौट १,  
१०, ६४; शांठ १, ५, ९; वीगृ  
१, २, ६१; शुभ १, ५१७०;  
यत्स्यैऽयत्स्यै आपथौ १४, १२,  
६०; वीथौ २७, ३: ९; हिथौ  
१०, ६, ६०; या आथौ ५, २०,  
६०; शांथौ ४, ५, १०; ६, १०,  
८०; आपथौ; माथौ २, ४, १,  
२४०; या: आथौ १, ५, ३१;  
११, ८०; शांथौ; यान् आथौ १,  
८, ७३०; वाथौ १, ७, २, २९;  
यानि ऋआथौ २, ९, ९; १०,  
१६; आपथौ; ऋयाभिः आथौ २,  
२०, ४; ३, ८, १; आपथौ ५,  
२, १; वृद्धे १, ८६; या १०, १९;  
याम्याम् वाथौ १, ६, ४, ३४;  
लाथौ ८, ६, ११; वीपि १, ३:  
९०; याम् आथौ १, १२, ४;  
शांथौ; याम्ऽयाम् वीथौ २६,  
२९: १८; ऋप्रा १७, २४;  
यासाम् आपथौ ४, ६, १०;  
वीथौ; यासु द्राथौ ३, १, १६;  
लाथौ; ये आथौ १, ३, १५; ७,  
७०; २, १९, १९; शांथौ; कौट  
३, ४, ५१; वीगृ १, ५, ५१०;  
मागृ १, १३, ४०; येऽये  
वीथौ २७, ११: १२; वीगृ;  
येन, > ना शांथौ १, १, ८; ६,  
३०; आपथौ; पागृ १, १, ३७६;  
येनऽयेन आपथौ ५, १६, २; हिथौ

२, ८, १३; मागृ १, १३, १८०;  
अप ६३, ५, २; ६८, १, ५१;  
येभिः आपमं २, ३, २; कागृ;  
येभ्यः काठथौ १५; माथौ १, १,  
२, २१; येवाम् आथौ ३, ४, १३;  
आपथौ; येषु वाधूथौ ३, १०२:  
३; द्राथौ; शांठ ३, ७, २०; ये:  
द्राथौ २, ३, ११; कप्र; वी शांथौ  
४, २०, १०; आपथौ १, ५, १;  
हिथौ; आपमं २, २१, १७०;  
पागृ ३, १४, ६०.  
यतस् (:) ऋआथौ ३, १०, ३१;  
१४, १०; ७, ४, ४; १०, ९, ५;  
शांथौ; यतऽयतः कौसू ४, ६;  
अप ५८, ४, १९.

यत-उच्चार<sup>१</sup>- रम् वीथौ  
१०, ३०: १३; वैथौ १८, १७:  
१५.

यतो-गृहलोक<sup>२</sup>- -कः शांथौ  
११, १२, १.

यत्र > त्रा आथौ १, १२, १०;  
३४०; शांथौ; लाथौ ९, १०,  
१३०; पा ६, १, १६१; ८, १,  
३०; यत्रऽयत्र ऋआपथौ ५,  
१३, ४; २२, १३, ३; वीथौ.

यत्र-स्थ- -स्थम् अप ७०,  
६, ५.

यथा, यथो (या-त्) आथौ २,  
१३, ७०; १४, १५; ६, २, ६; ७,  
४, ४; शांथौ; काथौ १३, ३,

२६०; आपथौ २१, २०, ३०;  
वाथौ ३, २, ५, ४३०; हिथौ  
१६, ६, ४१०; आपमं २,  
१, ३०; आगृ १, १३, ६०;  
आमिगृ ३, ५, २: ८०; आपम  
२, ४, ६०; या १, १४.

यथ (<था-क्त्विज्<sup>०</sup>-  
-त्विजौ कौसू ७३, ४; १३.

यथ (<या-क्त्वि<sup>०</sup>- -वि  
आथौ ३, २, ७०; आमिगृ २, २,  
५: १७.

यथ (धा-क्त्वि<sup>०</sup>- -चंम् लाथौ  
७, ११, ९.

यथ (धा-क्त्वि<sup>०</sup>- -तुं  
ऋआपथौ ६, ३१, १४; १०,  
२५, १; वीथौ; हिथौ ७, २,  
४७०.

यथ-तु-ज, जा- -जा:  
काथौ २२, ७, १५; आपथौ २२,  
९, ७; हिथौ १७, ४, २.

यथ (या-क्त्वि<sup>०</sup>- -वि काथौ  
४, ९, १; आपथौ; हिगृ २, ६,  
११.

यथ-र्वा (वि-आ) धान<sup>३</sup>-  
-नम् हिथौ ३, ४, ५; -नाभि  
आपथौ ५, ११, ७; -नेन कापथौ  
५, ११, ६: १३, ८; १५, ६;  
१७, १; आथौ.

यथ (या-क्त्वि<sup>०</sup>- -क्वे  
ऋअ ३, २२.

- a) सपा. शांठ १, १९, ६ हिगृ १, २५, १ यस्य (क्रिप. [ < √ यत्स ] ) इति, आपमं १, १२, ८ यस्य  
इति च पामे. । b) या: इति पाठः ? यनि. शोधः । c) पामे. वैप १, १४४७ a द्र. । d) पाठः ! जोषार्थ  
पृ १९१५ वृ द्र. । e) या (यानि) इति शोधः । f) सपा. तै १, ७, ७, २ यौ इति पामे. । g) तु. पागम. ।  
h) यत्स. । i) वैप १ द्र. । j) सपा. यथा <> यदा इति पामे. । k) सपा. शौ ६, ६८, ३ वि शष्टः पामे. ।  
l) तु. जोषं. । m) पामे. वैप १, २५६८ w द्र. । n) सपा. यथा देवनाम्यः <> यथादेवतम् इति पामे. ।  
o) विप. ( पूर्णहोम- , वैश्वदेव- ) । यत्स. पूष. हस्वः ( पा ६, १, १२८ ) । p) अम. पूष. हस्व. । q) यथा इति  
BI. ? । r) सपा. यथाक्त्वि <> यथर्वि इति पामे. । s) अम. । t) पामे. वैप १, २५६९ x द्र. ।  
y) = मन्त्रसमूहविशेष- । यत्स. उप. माप., यदा उम. उप. करणे <मा/धा द्र. ।

यथा-कथा-च<sup>a</sup> या १०,  
१६.

याथाकथाच- पा ५, १,  
९८.

यथा-कनिष्ठ<sup>b</sup> - एम् पागृ ३,  
२,६.

यथा-कर्मन्<sup>b</sup> - र्म आश्रौ १,  
१२, १३; शाश्रौ.

यथा-कर्म-संयोग<sup>b</sup> - गम्  
वाश्रौ १, १, २, १५.

यथा-काण्ड<sup>b</sup> - ण्डम् अपं  
२: ६.

यथा-काम<sup>b</sup> - पाग ५, १,  
१२४; -मम् काश्रौ २२, ५, १;  
भाश्रौ ७, १९, १; माश्रौ.

याथाकाम्य<sup>c</sup> - पा ५,  
१, १२४; -स्यम् शाश्रौ २, १,  
६; १०, १३, ५; -स्यात् निसू २,  
४: २१; -स्ये पावा ८, १,  
६६<sup>e</sup>.

याथाकामी - सी  
शाश्रौ १, ३, ७; ६, ६, १८; काश्रौ;  
द्राश्रौ २, २, २०<sup>d</sup>.

यथाकाम-कल्प-तर-  
-रा: छसू ३, १४: १७.

यथाकाम-कल्प्य-त्व-  
-त्वात् निसू ५, ५: २२.

यथाकाम-प्रयोग- ना:  
वौश्रौ १७, ४७: ११.

यथाकामी - सी  
वाश्रौ १, २, २, ३७; ५, २, ६; ४९;  
६, ६, ६; लाश्रौ २, ५, १६<sup>d</sup>;  
१०, १, ६; पागृ.

यथा-काम- म: वौश्रौ २,

१: १६; -मा: वाधूश्रौ ४, १९:  
९; १०.

यथा-काय<sup>b</sup> - यम् काश्रौ  
६, १, ३२.

यथा-कारम् पा ३, ४, २८.

यथा-कार्य<sup>b</sup> - र्यम् अप्राय  
३, ६.

यथा-काल<sup>b</sup> - लम् काश्रौ  
४, १२, १५; १६, ७, ७××;  
आपश्रौ; -ले शंध ३१२.

यथाकाल-विधान- नात्  
पावा ३, ४, १.

यथाकालो(ल-उ)पपात-  
-ते काश्रौ २५, २, २३.

यथा-कुल<sup>b</sup> - लम् शंध २७.

यथा-कुलधर्म<sup>b</sup> - र्मम् आगृ  
१, १७, १; १८; कागृ ४०, ८;  
कागृउ ४४: २१; कौसू ८२, ३५.

यथा-कृत<sup>b</sup> - तम् काश्रौ १६,  
४, १०; निसू ५, १: १७; वौश्रौ  
४, ५, ३; विध ६, ४२.

यथा-कृत्य<sup>b</sup> - स्यम् वाधूश्रौ  
३, १०६: ६.

यथा-कृष्ट<sup>b</sup> - एम् काश्रौ १७,  
३, ३.

यथा-क्रतु<sup>b</sup> - तु वौश्रौ १४,  
४: ३४; २१, १७: ३; २२, ११:  
२४.

यथा-क्रम<sup>b</sup> - मम् काश्रौसं  
३: ६; वैश्रौ १५, १२: १××;  
आमिगृ; मौसू ११, १६<sup>b</sup>;  
-मेण वौश्रौ २९, २: ८; आमिगृ  
२, ५, १: १४; वैश्रौ ४, १४:  
२; अप २६, ५, ७.

यथा-कोश<sup>b</sup> - शम् काश्रौ  
२२, ३, ३७.

यथा(था-अ)क्षर<sup>b</sup> - रम् अप  
४१, २, ६; अत्र १०, ६; ११,  
३(२).

यथा-खात<sup>b</sup> - तम् काश्रौ ८,  
५, ८; १२; ८, १८; वैश्रौ १४,  
८: १०; आपगृ १७, ५.

यथा-ख्यात<sup>b</sup> - तम् वौश्रौ  
६, ६: ५; ६.

यथा(था-आ)गत<sup>b</sup> - तम्  
वौश्रौ २१, १३: ८; जैश्रौका ३०;  
१७५; अप ३०<sup>३</sup>, २, ८.

यथा(था-आ)गम<sup>b</sup> - मम्  
आपध १, १७, १३; २, ५, १८;  
हिध १, ५, ४५; २, १, १००.

यथा(था-आ)गम-प्रज्ञा-श्रुति-  
स्मृति-विभव- नात्<sup>k</sup> शांगृ ६,  
६, १६.

यथा-गव<sup>१</sup> - वम् वौश्रौ १०,  
२५: १०; आमिगृ ३, ८, २: १४;  
वौषि १, १५: २५; २२: १४.

यथा-गान्न<sup>b</sup> - त्रम् कौसू ८१,  
२६.

यथा-गीत<sup>b</sup> - तम् द्राश्रौ  
२, १, २७; लाश्रौ २, ५, २१.

यथा-गुण<sup>b</sup> - णम् आपध २,  
२५, ९; हिध २, ५, १८८.

यथा-गृह<sup>b</sup> - हम् वौश्रौ १८,  
२५: ४.

यथा-गृहीत<sup>b</sup> - तम् आश्रौ  
३, ६, २७; काश्रौ ९, ७, ८; भाश्रौ;  
-तेन आपश्रौ ३, ८, १०; भाश्रौ  
३, ७, ११.

a) अनादरे निपातसमाहारः। b) अस.। c) प्यञ्जि प्र. वृद्धिः (पा ७, २, ११७)। d) सपा.  
याथा° <> यथा° इति पाठे। e) वैतु. पाका. य° इति?। f) उप. = रकाय-। g) वैप १ द्र.।  
h) यथाप्राप्तम् इति जीसं. प्रम्.। i) उप. = रकोश-। j) उप. = शास्त्र-। k) वा. क्वि.। l) अस.  
समासान्तपू टच् प्र. (तु. भायती-गव- [पा २, १, १७])।

२यथा-गृहीत<sup>a</sup> - तस्य पावा  
६, १, १३; ७, १, ३३.

यथा-गोत्र<sup>b</sup> - त्रम् वौश्रौ २,  
१६; ४९; १७: ५; ४३.

यथा—गोत्र-कुल-कल्प<sup>c</sup>-  
-ल्पम् गोष्ट २, ९, २३; द्राष्ट २,  
३, ३०.

यथा(धा-अ)ग्नि- -ग्नि  
काश्रौ १६, ८, २१; काश्रु ६, १.

यथा(धा-आ)ग्नोन्नभाग<sup>d</sup>-  
-गम् वाश्रौ १, ६, ७, २०.

यथा-ग्रहण<sup>e</sup> - गम् आश्रौ ५,  
१०, २०.

यथा(धा-अ)ह<sup>b</sup> - हम् शाश्रौ  
१७, १२, ६; काश्रौ २१, ४, ८;  
आपश्रौ.

यथा-चमस<sup>b</sup> - सम् शाश्रौ  
८, २, १३; ९, २; आपश्रौ १३,  
१७, ९; काठश्रौ.

यथा(धा-आ)चरित<sup>b</sup> - तम्  
काष्ट ४७, ४; ५०, २.

यथा(धा-आ)चार<sup>b</sup> - रम्  
काष्ट ५०, ३; ५१, १३.

यथा-चिति<sup>b</sup> - ति काश्रौ  
१८, ४, १५.

यथा-चोदित<sup>b</sup> - तम् आश्रौ  
१, ५, २४; शाश्रौ २, ५, १७;  
आपश्रौ १४, ५, २; वौश्रौ २२,  
२: १०.

यथा-चन्दस्<sup>b</sup> - न्दः वाश्रौ  
३, २, २, ४३; अशां १८, ३.

यथा-चन्दस्<sup>d</sup> - सन् शाश्रौ  
९, २०, ५.

यथा-जात<sup>b</sup> - तम् जैश्रौ ७:  
६.

यथा-जाति<sup>b</sup> - ति द्राश्रौ ५,

३, १६; लाश्रौ २, ७, १५; ६, ५,  
२५; ८, २, १७; १८.

यथा-ज्ञात<sup>b</sup> - ते मीसू २, ४,  
२३.

यथा-ज्ञान<sup>b</sup> - तम् गोष्ट ३,  
९, १९; कप्र २, १०, ५.

यथा-ज्येष्ठ<sup>a</sup> - ष्टम् वौश्रौ  
२४, १२: ११; द्राश्रौ.

यथा-ज्येष्ठ<sup>b</sup> - ष्टयम् कप्र  
२, १०, ५.

यथा-तत्त्व<sup>b</sup> - त्वम् वाघ  
१६, ३२.

यथा-त(था>)थ<sup>b</sup> - पाग ५,  
१, १२४<sup>e</sup>; -यम् आपश्रौ ३,  
१२, १<sup>f</sup>; भाश्रौ ३, ११, १<sup>f</sup>;

हिश्रौ.

१याथातथ्य- पा ५, १,  
१२४; -ध्यात् निसू ५, ७:

२६; -ध्येन वृदे १, ४; शुश्र ४,  
१६०.

यथा-तथा (>२याथा-  
तथ्य- पा.) अश्र ११, ३ (२);

पाग ५, १, १२४<sup>e</sup>.

यथा-तृप्ति<sup>b</sup> - त्ति वैष्ट ४,  
४: १५.

यथा-दत्त<sup>b</sup> - त्तम् वौश्रौ  
११, ९: १०; विध ६, १.

यथा-दधिभक्ष<sup>b</sup> - क्षम्  
शाश्रौ ८, ९, ९.

यथा-दिश<sup>b</sup> - दिक् आश्रु २,  
८, ९; अ१ ५८, १, १२.

यथा-दिश<sup>d</sup> - शम् आमिष्ट  
१, ७, २: ५; काष्ट २३, ४;  
वैष्ट.

यथा(धा-आ)दिष्ट<sup>b</sup> - ष्टम्  
आपश्रौ १९, १८, ३; २२, १, २;

वाश्रौ.

यथा-दष्ट<sup>b</sup> - ष्टम् हिश्रौ  
१६, ७, २३; वौश्रौ १, १०, २९;

मीसू ९, ३, १५.

१यथा-देवत<sup>b</sup> - तम् शाश्रौ  
४, ९, ६; १४, १०, १४; काश्रौ;

हिध २, १, ५९<sup>f</sup>.

२यथा-देव(त >)ता<sup>b</sup> -  
-तया वाष्ट १, २५.

१यथा-देश<sup>b</sup> - शम् शाश्रौ  
१३, २४, १५; काश्रौ ४, १५, ३;

२०, ५, १५; २४, ६, २; जैश्रौका  
३३; लाश्रौ १०, १५, १०.

२यथा(धा-आ)देश<sup>b</sup> - शम्  
जैश्रौ १८: ११; आश्रु १, २३,  
१८<sup>f</sup>; गोष्ट १, १, ४.

यथा-द्वैवत<sup>b</sup> - तम् हिश्रौ ८,  
६, २८; १४, ५, १७; जैश्रौ.

यथा-द्वैव्य<sup>b</sup> - व्ये काश्रौ  
२२, २, २२.

यथा-धर्म<sup>b</sup> - र्मम् वौश्रु  
११: १५; १२: १२; १३: ७.

यथा-धक्त्रि<sup>b</sup> - त्रम् वौश्रौ  
२३, ६: २.

यथा(धा-आ)घान<sup>b</sup> - नम्  
वैश्रौ ७, ५: ९.

यथा(धा-अ)धिकरण<sup>b</sup> - गम्  
वौश्रौ २०, ८: २१; २४, २: १;

भाश्रौ ५, १४, १३; ८, ६,  
१६.

यथा(धा-अ)धिकार<sup>b</sup> - रम्  
निसू २, १०: २४; गौध ११,  
२४; पावा ४, २, ६६; ४, २०;

मीसू ७, १, १, ४, ८.

यथा-धिगिग्य<sup>b</sup> - यम्  
आपश्रौ २१, १२, ६; हिश्रौ १०,

a) कस.। b) अस.। c) अस. > द्वन्. > पस.। d) वष १ द्र.। e) वृ. पागम.।

फ्या इति भाष्य.। f) पाभि. पृ २००८ ण द.। g) वस.।

४, ५७; १६, ५, २.

यथा-धिष्ण्य<sup>१</sup>- -ष्ण्यम् शांश्रौ  
५, १९, १; वैताश्रौ १८, १८.१यथा (था-अ) धीत<sup>१</sup>- -त्तम्  
द्राश्रौ ६, ३, १८; ९, ३, १७;  
१५, ४, ९; ११; लाश्रौ.२यथा (था-अ) धीत<sup>१</sup>- -तानि  
जैश्रौ २६: ९.१यथा-धुर<sup>१</sup>- -रम्<sup>१</sup> माश्रौ २,  
३, २, २२; हिश्रौ ८, १, ७६.यथा (था-अ) ध्याय<sup>१</sup>- -यम्  
आमिष्ट १, २, १: ७; २: ४२; हिष्ट  
२, १८, ७; २०, ९; आपध १,  
११, २३; हिष्ट १, ३, ७३.यथा-नामन्<sup>१</sup>- -म वैश्रौ १३,  
११: ६.यथा-ना(मन् >) मा<sup>१</sup>- -मा  
आपश्रौ १५, ९, ४; भाश्रौ ११,  
९, ५; हिश्रौ २४, ४, २; आमिष्ट  
१, १, ३: ५; हिष्ट १, ५, ५.यथा-निपात<sup>१</sup>- -त्तम् ऋश्र २,  
१०, १२४.यथा-निमित्त<sup>१</sup>- -त्तम् वागृ  
१४, ४.१यथा-निरुप्त<sup>१</sup>- -प्तम् वौश्रौ  
२०, ६: ९; आगृ १, १०, ७;  
कौसू ८८, ३.२यथा-निरुप्त<sup>१</sup>- -प्तान्  
अप्राय २, २.यथा-निर्भेद<sup>१</sup>- -दम् वौश्रौ  
२२, १८: ९.यथा-निवेदा<sup>१</sup>- -दाश् मीसू  
१०, ५, ९.यथा-निशान्त<sup>१</sup>- -न्तम्  
आश्रौ ५, ९, १२; ७, १२, १२;

१४; ८, ३, २२.

यथा-निःसृप्त<sup>१</sup>- -सम् शांश्रौ  
७, १४, १२.यथा (था-अ) नुकूल- -लम्  
कौगृ १, २०, ५.यथा (था-अ) नुपूर्व<sup>१</sup>- -र्वम्  
माशि १, १.यथानुपूर्व-करण- -णम्  
वौगृ ४, ११, ३.यथा (था-अ) नुपूर्व-करण-  
-णम् काश्रौ २५, ५, १८; १०, २३.यथा (था-अ) नुरूप<sup>१</sup>- -पम्  
शंघ २५१.यथा(था-अ) नूक<sup>१</sup>- -कम् अप  
६८, १, ५४.यथा (था-अ) न्तर<sup>१</sup>- -रम्  
आश्रौ ५, ३, २४; ८, ७, १५;  
कौसू ८, १०; ऋप्रा १, ५६.याथान्तर्य- -र्यात्  
निसू ८, १०: ३३; १३: २८.यथान्तर-प्रत्यासत्ति-  
-त्ति: निसू २, १३: ४४.यथान्याय<sup>१</sup>- -यम् काश्रौ  
१४, २, २२; वौश्रौ २, २: २०;  
वैश्रौ.१यथान्युप्त<sup>१</sup>- -सम् काश्रौ  
९, ७, ५; १०, ६, १४; वौश्रौ.२यथान्युप्त<sup>१</sup>- -सै: वौश्रौ  
७, ८: २७.यथा (था-अ) न्ववेत<sup>१</sup>- -त्तम्  
भाश्रौ ३, १८, १०; ४, २२, ११.यथा-पद<sup>१</sup>- -दम् ऋप्रा ११,  
२३; ३३; उस् ७, १९<sup>१</sup>; ८, ३१.यथापद-लोभ<sup>१</sup>- -भा:  
माश्रौ २, २, ४, १२.यथापद-संघि<sup>१</sup>- -घि:

उस् ७, १८.

यथा-परिदत्त<sup>१</sup>- -त्तम् कौगृ  
२, ७, ३१<sup>१</sup>.यथा-परिधित<sup>१</sup>- -त्तम् आपश्रौ  
२, १३, १; माश्रौ १, ३, १, ८;  
४, २.यथा-परिमाण<sup>१</sup>- -णम् हिश्रु  
१, ३९.यथा-परिलिखित<sup>१</sup>- -त्तम्  
काश्रौ ८, ५, ७.यथा-परीत्त<sup>१</sup>- -त्तम् शांश्रु  
२, १२, १८<sup>१</sup>.यथा-परु<sup>१</sup>- -रु कौसू ६४,  
१०; ८५, २५; ८६, ८.यथा-पर्युक्षित<sup>१</sup>- -त्तम् काश्रौ  
४, १४, ३०.यथा-पर्वन्<sup>१</sup>- -र्वं शांश्रौ १४,  
१०, ४.यथा-पिण्ड<sup>१</sup>- -ण्डम् द्रागृ ३,  
५, २०; २८<sup>१</sup>.यथा-पु (रा >) र<sup>१</sup>- -रम्  
आपश्रौ ९, २०, ७<sup>१</sup>; जैश्रौका  
२०४; कौसू ७२, ४३; आपध २,  
२७, १; हिष्ट २, ५, २२०.यथा-पुरूप<sup>१</sup>- -पम् हिश्रौ ११,  
७, २७.यथा-पुरोडाश<sup>१</sup>- -शाश् हिष्ट  
२, १४, ४.यथा-पूर्व<sup>१</sup>- -र्वम् काश्रौ १,  
८, ३२; २, १, ७××; आपश्रौ.यथा-पृष्ट<sup>१</sup>- -ष्टम् निसू ५,  
९: २४.यथा-पृष्टय<sup>१</sup>- -ष्टयम् शांश्रौ  
१४, ८, ७.

a) अस. । b) मलो. कस. । c) वैप १ द्र. । d) पाभे. वैप १, २५७० &amp; द्र. । e) वस. ।

f) = यथापठित- । g) तु. Pertsch; वैतु. कालिसं. उत्तरेण समस्तम् षदप्रत्या० इति ? । h) परस्परं पाभे. ।

i) वैप २, ३खं. द्र. ।

यथा-प्रकाश<sup>a</sup> - शम् शंघ  
११६: ७१.

यथा-प्रकृति<sup>a</sup> - ति शांथ्री  
११, १३, ४; काश्री ८, २, २६;  
षापथ्री २, ७, ५; भाथ्री.

यथा-प्रकृति<sup>b</sup> - ?तिम्<sup>b</sup>  
वौथ्री २३, ११ : ३; १८ : १६.

यथा-प्रदान<sup>a</sup> - नम् मीसू ५,  
४, ३.

यथा-प्रदेश<sup>a</sup> - शम् वैथ्री  
१३, १५ : १९.

यथा-प्रधान<sup>a</sup> - नम् शांथ्री ६,  
३, २; मीसू ५, १, १७; १०, ८, ५३.

यथा-प्रपन्न<sup>a</sup> - नम् शांथ्री ५,  
१८, १२; २०, ७; १७, १२, ४;  
वौथ्री.

यथा-प्रयोग<sup>a</sup> - गम् वौथ्री  
२१, १ : ५; तैप्रा १८, ७<sup>२</sup>.

यथा-प्रवृत्त<sup>a</sup> - तम् काथ्री  
९, ८, १५.

यथा-प्रवेश<sup>a</sup> - शम् वैथ्री ५,  
२ : १७.

यथा-प्रसूत<sup>a</sup> - सम् आथ्री  
६, १२, २; काठथ्री १४५; वौथ्री  
७, ११ : २४; वाथ्री १, १, ६, ९.

यथा-प्रस्तर<sup>a</sup> - नम् द्राथ्री ५,  
१, २३; लाथ्री २, ५, १८.

यथा-प्राणु<sup>a</sup> - शु<sup>c</sup> आपथ्री  
७, १३, ३.

यथा-प्रेषित<sup>a</sup> - तम् काथ्री  
२, ६, २७; माथ्री १, ८, ६, २; २,  
३, २, १०; ४, १, २२; वाथ्री १,  
२, २, ६.

यथा-प्रेष<sup>a</sup> - यम् वाथ्री ५,

८, ४; वैताथ्री १९, २३.

यथा-फलविभाग<sup>a</sup> - तस् (:)  
अप २६, १, १.

यथा-त्रल<sup>a</sup> - लम् कौसू ७३,  
१४; वौध १, १०, २०.

यथा-त्राल<sup>a</sup> - लम् वौध १,  
५, ११०.

यथा-त्राहण<sup>a, d</sup> - णम्  
आपथ्री १३, २४, १९; १७, २,  
९; वौथ्री.

यथा-त्राहणोक्त<sup>a</sup> - क्तम्  
काठथ्री १६६; षप्राय २, २.

यथा-भक्ति - क्ति निसू ८,  
५ : ५; २१.

यथा-भक्षित<sup>a</sup> - तम् काथ्री  
१९, ३, १७.

यथा-भाग<sup>a</sup> - गम् ऋआथ्री  
२, ७, १××; शांथ्री; आपथ्री २४,  
३, १७; १८; काथ्रीसं ४ : ४;  
वौथ्री ३, १०; २३; हिथ्री ३, ८,  
६३; निसू ५, ९ : २४; कौसू  
६, ११; शंघ २७३.

यथाभाग-मन्त्र - न्त्रेण  
वैथ्री ८, ४ : ७<sup>०</sup>; ९, ४ : १६;  
६ : २.

यथा(धा-अ)भिधान<sup>a</sup> - नम्  
ऋअ १, २, २१.

यथा(धा-अ)भिप्रेत<sup>a</sup> - तम्  
द्राथ्री १०, २, १३; ११, ३, १५;  
लाथ्री ३, १०, १३; ४, ३, १६;  
९, २, २९.

यथा-भूमिपमाण<sup>a</sup> - णेन  
अप ३, १, १६

यथा-भूयस्<sup>a</sup> - यः विध

७३, २.

यथा-भूयस्य<sup>a</sup> - स्येन निसू  
१०, ७ : ६.

यथा-भूयिष्ठ<sup>a</sup> - ष्टम् निसू २,  
८ : १२.

यथा-मङ्गल<sup>a</sup> - लम् पाण २,  
१, ४; २१; २, ४.

यथा-मति<sup>a</sup> - ति तैप्रा १७,  
८<sup>१</sup>.

यथा-मनस<sup>a</sup> - सम् आपथ २,  
९, १; हिध २, १, ११६.

यथा-मन्त्र-वर्ण<sup>a</sup> - णीम्  
काथ्री ६, ३, २०.

यथा-मात्र<sup>a</sup> - त्रम् आपथ १,  
८, २९; हिध १, २, ११७.

? यथामात्रविचक्षण -  
णः शैशि १८१.

यथा-मुख - > खीन - पा  
५, २, ६.

यथा(धा-आ)म्नात<sup>a</sup> - तम्  
काथ्री १, ८, १६; ६, ७, २५;  
१९, ५, ६; वौथ्री.

यथा(धा-आ)म्नात<sup>a</sup> - तः  
माथ्री ५, १, २, ६, ९.

यथा(धा-आ)म्नाय<sup>a</sup> - यम्  
वौथ्री २०, ८ : १६; २६, ४ : ३;  
वैथ्रीका.

यथा(धा-आ)म्नाय-प्रणि  
धि<sup>b</sup> - धि वौथ्री २४, १ : २.

यथा(धा-आ)यतन<sup>a</sup> - नम्  
शांथ्री १७, १२, ४; आपथ्री १२,  
१४, १०; १३, १३, १२; १९, १,  
२०; २, १२; वौथ्री; वौपि ३, १,  
१७<sup>१</sup>.

a) अत. ।

b) पाठः ? कृतम् इति शोधः (तु. संस्कृतः शब्दसूची) ।

c) सप्र. हिथ्री, ४, ३, १३

यथामुक्तम् इति पाठे. ।

d) उप. = १ द्वाहणम्.

e) सप्र. हिथ्री ५, १, १५ विभागमन्त्रेण इति पाठे. ।

f) उप. = भूयस्त्व- ।

g) अत. उप. समासान्त्युत् प्र. (पा ५, ४, १०७) ।

h) अत. > पत. ।

i) विप. ।

मत्तो. कस. वा यस. उप. भाप. वा ।

j) यथायथम् इति इ. ।

यथा-य (था>) थ<sup>a</sup> - यम्  
आश्रौ २, ५, १०<sup>क</sup>; शांश्रौ;  
आपश्रौ १२, ६, ३<sup>क</sup>; १६, २५,  
२<sup>क</sup>.

१यथा-युक्त<sup>c</sup> - क्तम् वौश्रौ  
११, ७ : ३३; -क्तात् तैत्रा ५, २.

२यथा-युक्त<sup>d</sup> - क्तः आपध  
२, १२, ४; वौध १, ११, १७;  
हिध २, ४, ३९.

यथा-यूप<sup>e</sup> - यम् काश्रौ ८,  
८, २१; काश्रु ६, ८.

यथा-यूपावट<sup>f</sup> - टम् माश्रौ  
२, २, ३, १३.

यथा-योग<sup>g</sup> - नाम् काश्रौ  
१७, ६, ३; आपश्रौ.

यथायोग-नत - तम्  
आपश्रु १६, ३; ५; हिश्रु ५, २४;  
२६.

यथायोग-परिणाह<sup>h</sup> -  
-हम् वैश्रौ १, १ : २६.

यथा-योनि<sup>i</sup> - नि वैश्रौ २, १:  
८; २०, १२ : १; हिश्रौ ८, ४, १३;  
लाश्रौ ७, ९, ६.

यथा(था-आ)रम्भ<sup>j</sup> - र्भम्  
काश्रौ १०, २, २४.

१यथा-रूप<sup>k</sup> - यम् शांश्रौ ६,  
२, ३; वौश्रौ ६, ७ : २३; ९, १७ :  
३०; १५, २४ : ७; भाश्रौ.

यथारूप-विशिष्टा-  
(ष्ट-आ)क्षेप<sup>l</sup> - पे शंघ ३१२.

२यथा-रूप<sup>m</sup> - पाः लाश्रौ ८,  
१०, ६; ९, ४, २६; -पान् वौश्रौ  
१५, १६ : ७.

यथा (था-आ) रोह<sup>n</sup> - हम्

जैश्रौका ४४.

१यथा (था-अ) र्थ<sup>o</sup> - र्थम्  
आश्रौ १, ९, ३; ३, २, ११; १५××;  
शांश्रौ; वाश्रु १४, २५<sup>क</sup>।<sup>६</sup>

यथार्थ-दृष्ट - दृष्टम् अप  
७०<sup>३</sup>, ११, ३२.

यथार्थ-प्रत्यासत्ति - त्तिः  
लाश्रौ ९, ७, ६.

यथार्थ-स्तोमा (म-अ)-  
न्वय - यात् दाश्रौ ९, १३, २.

२यथा(था-अ) र्थ, र्था<sup>o</sup> - र्थाः  
दंवि १, ८; - र्थान् आपध २, २५,  
१२; हिध २, ५, १९१; - र्थाम्याम्  
वैश्रौ १३, ३ : ८.

यथार्थ-कल्पना - न्नामीसु  
७, ४, ६.

यथार्थ-लक्षण - > ण्य<sup>p</sup> -  
-ण्यम् वाश्रु १५, ४.

यथा (था-आ) र्थ<sup>q</sup> - र्थम्  
माश्रौ १, ५, ४, १३.

यथा (था-आ) र्थेय<sup>r</sup> - यः  
आपश्रौ २, १६, ५; भाश्रौ २,  
१५, ८.

१यथा(था-अ) र्हे<sup>s</sup> - र्हेम् पाश्रु  
२, ९, १२; १३; कौसू १११, ११;  
१२७, १३; आपध २, २६, १;  
विध ३, ३८××; वैध.

२यथा(था-अ) र्हे<sup>t</sup> - र्हेण अप  
५, ५, ४.

यथा-लक्षण<sup>u</sup> - णम् हिश्रौ  
२१, २, ३५; अप ६५, २, ४;  
कौशि ४७.

यथालक्षण-संयुत - तान्  
अप २१, १, १.

१यथा-लाभ<sup>v</sup> - भम् वौश्रौ  
२, ६ : २२; २९, १ : १३; वाश्रौ  
१, ५, २, २३; वैश्रौ १, ७ : १२;  
११ : १५; आमिश्र २, ६, ५ : १४;  
६ : ३२; वौश्रु २, ९, १४; भाश्रु  
३, १५ : २३; हिश्रु १, २६, ७;  
आपध १, ४, ३; हिध १, १,  
१२२.

१यथालाभगन्धसक्षीर-  
फलवत्<sup>w</sup> - वद्भ्यः वाश्रु १४, ६.

यथालाभ-मिश्र - श्रम्  
वैश्रु ५, ४ : १.

यथालाभो (भ-उ) जत -  
-तम् वैश्रु १, ८ : ३.

२यथा-लाभ<sup>x</sup> - भेषु अप  
२३, ६, ३.

यथा-लिखित-पाठक - कः  
याशि २, ८२.

यथा-लिङ्ग<sup>y</sup> - ङ्गम् काश्रौ ३,  
३, ७; ५, ४, १०××; आपश्रौ.

यथा-स्त<sup>z</sup> - नम् माश्रौ १,  
१, १, ४२; वैश्रौ ३, ४ : १४.

यथा-लोक<sup>aa</sup> - कम् आपश्रौ  
१५, १८, १०; २७, १××; काश्रौ.

यथालोक-वृहद्दरथन्तर<sup>ab</sup> -  
-राः निसू १०, १ : २५; २८.

यथा(था-अ) वकाश<sup>ac</sup> - शम्  
आपश्रौ १२, २, ८; १७, ४, १०;  
१९, १४, ७; वौश्रौ; शांश्रु ४, ८,  
४<sup>क</sup>.

यथा-वचन<sup>ad</sup> - नम् या १, ३.

यथा-वत् वैश्रौ १६, १० :  
६; वौश्रु.

यथा(था-अ) वत्<sup>ae</sup> - त्तम्

a) वैप १ द्र. । b) पाभे. वैप १, २५७० द्र. । c) अस. । d) कस. वा वस. उप. भाप. वा ।  
e) वस. । f) सुष्पुपीयः समासः > पस. । g) दत्त्वा यथार्थम् इत्यस्य स्थाने सपा. ऋ १०, ८५, ३३ दत्त्वायाथारत्तं  
इति पाभे. । h) यत् प्र. वसं. (पा ४, ४, ९२) । i) मलो. कस. । j) पाठः ? लामं गन्धांश्च क्षीरफलवद्भ्यः  
इति संस्कृतुः टि. । k) सपा. यथावकाशम् <> यथासनम् इति पाभे. ।

काश्रौ २०, ८, ८.

यथा(था-ञ्च)वदान<sup>a</sup>- नम्  
माश्रौ १, ३, २, १९; ३, १, ३१;  
-नेन अप्राय ३, ९.

यथा(था-ञ्च)वनिक्त<sup>b</sup>- क्तम्  
काश्रौ ४, १, ११; ५, ९, १४; पाठ  
२, १४, १३.

यथा(था-ञ्च)वनेजित<sup>c</sup>- तम्  
शाश्रौ ४, ४, ५.

यथा(था-ञ्च)वभृय<sup>d</sup>- यम्  
काश्रौ २२, ७, २०.

यथा-वयस्<sup>e</sup>- -यः आश्रौ  
१२, ८, १७; आपध २, ६, ७;  
हिध २, २, ७.

यथा-वयस<sup>f</sup>- -सम् लाश्रौ  
८, १२, ३; गौट २, ४, १०.

यथा-वर्ग-परिग्रह<sup>g</sup>- -हम्  
अप ५२, १५, ४.

यथा-वर्ण<sup>h</sup>- -र्णम् वौश्रौ  
९, ४ : १४; २१, ९ : २६; २४,  
१६; ४; वैश्रौ; अप ५२, १५, ४<sup>i</sup>.

यथा-वर्ण<sup>i</sup>- -र्णानि अशां  
६, ६.

यथा-वर्ण-परिग्रह<sup>j</sup>- -हात्  
अप ६४, २, १०.

यथा-वर्तन-गोचर्मन्<sup>k</sup>- >  
र्म-चक्र-तल्पे (लप-इ)पु-संमि-  
(त>)ता<sup>l</sup>- -त्ता अप २४, १, ६.

यथा(था-ञ्च)वलेप<sup>m</sup>- -पम्  
शंघ ९.

यथा-वपट्कृत<sup>n</sup>- -तम् शाश्रौ  
७, ८, १०; आपश्रौ १२, २७, ९.

यथा(था-ञ्च)वसित<sup>o</sup>- -तम्  
माश्रौ ३, ५, ५.

यथा-वाक्य<sup>p</sup>- -नयम् वृदे  
२, १२२.

यथा(था-ञ्च)वाहन<sup>q</sup>- -नम्  
वैट १, १३ : ४.

यथा(था-ञ्च)वाहित<sup>r</sup>-  
-तम् आश्रौ १, ५, २४; माश्रौ ३,  
१, ३०.

यथा-विकार<sup>s</sup>- -रम् हिश्रौ  
६, ४, ४१; ८, २; ५; ७<sup>t</sup>.

यथा-वितान<sup>u</sup>- -नम् कौसु  
१३७, १; अप २१, ५, १.

यथा-विदित<sup>v</sup>- -तः शंघ  
३२५.

यथा-वि(धा>)ध<sup>w</sup>- -धेन  
विध ५८, १२.

यथा-विधान<sup>x</sup>- -नम् वौध  
२, ८, १९.

यथा-विधि<sup>y</sup>- -धि जैश्रौका  
६६; ७६; १५०; आमिगृ.

यथाविधि-दत्त-जल-  
पिण्ड-दानादि- -दि वैट ५,  
१५ : १८.

यथा-विभक्ति-वाचित-  
-तम् वैट १, ७ : १०.

यथा-विभवा(व-ञ्च)नुरूप<sup>z</sup>-  
-पम् वैट ५, ९ : ७.

यथा-विभाग<sup>aa</sup>- -गम् शां  
१, ३, ३.

यथा-विहित<sup>ab</sup>- -तम् वाश्रौ  
३, ३, १, १५.

यथा-विहित, ता<sup>ac</sup>-  
-तानाम् पावा ३, ३, ११; -ताम्  
विध ६, ४.

यथाविहिता(त-ञ्च)-

नुष्ठान- -नम् वैध १, ९, ११.

यथा-वृद्ध<sup>ad</sup>- -दम् शंघ २४४.

यथा-वेद<sup>ae</sup>- -दम् काश्रौ  
७, १, ८; वौश्रौ ७, ८ : ३x; वैश्रौ.

यथा-वेदि<sup>af</sup>- -दि काश्रौ ५,  
४, ८.

यथा-व्यावर्तन<sup>ag</sup>- -ने अप  
३३, ४, ५.

यथा-शक्ति<sup>ah</sup>- -क्ति आश्रौ  
२, ७, २; काश्रौ; -क्त्या कप्र २,  
३, ७; अप १०, १, ५; ७०<sup>ai</sup>,

२२, २; वाध २७, ८; विध ६७,  
४५; ७३, १२.

यथा-शरीर<sup>aj</sup>- -रम् आपश्रौ  
५, ३, १<sup>ak</sup>.

यथा-शर्क(रा>)र<sup>al</sup>- -रम्  
वौश्रौ १०, २० : १३; २६ : १७;  
१९, २ : ७; आमिगृ ३, ८, २;  
२४; वौपि १, १५ : ३३.

यथा-शाक<sup>am</sup>- -कम् वाधूश्रौ  
३, १०४ : १.

यथा-शास्त्र<sup>an</sup>- -स्त्रम्  
आमिगृ २, ४, ७ : १३; ३, १२,  
१ : १; २२; अप.

यथा-शास्त्रा(स्त्र-ञ्च)नु-  
सार<sup>ao</sup>- -तसः(ः) आमिगृ २, ६,  
७ : ४.

यथा(था-ञ्च)शिप- -पम्  
लाश्रौ ६, २, ३.

यथा-शिष्ट<sup>ap</sup>- -ष्टम् मीसु ५,  
१, १९; ७, २, १.

यथा-शृत<sup>aq</sup>- -तम् वौश्रौ  
२१, ५ : ४.

यथा-शृत<sup>ar</sup>- -तान् हिश्रौ

a) अस्. । b) उप. = आयुस्- । c) अस्. समासान्तप् टच् प्र. ठसं. (पा ५, ४, १०७) । d) अस्. >

पस. । वा. क्वि. । e) उप. = जाति- । f) उप. = शुक्लादि- । g) वस. । h) अस्. > पस. ।

i) वस. > क्त. । j) विप. (वेदि-) । k) उप. = ज्ञान- । l) वस. वा मञ्जो. कस. वा । m) मलो. कस. ।

n) उप. = वेद- । o) उप. भाप. (शक्ति-)



२२, ४, १६.

यथा-अ(दा>)द्व<sup>a</sup>- -द्वम्  
शांश्रौ १४, १२, ५; काश्रौ.

यथाश्रद्ध-दक्षि (णा&gt;)

ण<sup>b</sup>-णः आपश्रौ ३, १५, ४;  
भाश्रौ ३, १३, ७; -णम् वौश्रौ  
२६, २० : ३; -णाः जैश्र १, ४ :  
३०.यथा-श्राद्ध<sup>a</sup>- -द्वम् काश्रौसं  
६ : ६<sup>१</sup>; कौश्र ५, ७, १; कौसू  
१४१, ११; गौश्र १५, २.यथा-श्रुत<sup>a</sup>- -तम् वौश्र १,  
१०, २९.यथा-श्रुति<sup>a</sup>- -ति जैश्रौका  
११५; १५५; अप ७०, ९, ३;  
आपश्र २, ९, ९; हिश्र २, १,  
१२४; हिश्रु ४, २०; मीसू.यथा-संवाद<sup>a</sup>- -द्वम् काश्रौ  
२०, ८, २४.यथा-संहि(ता>)त<sup>a</sup>- -तम्  
कप्रा १०, ६; ११, ४५; उसू ३,  
४; ६<sup>२</sup>; ४, २०; ६, ९; अप्रा २,  
४, १५.यथा-सं(ह्युव्या>)व्य<sup>a</sup>-  
-व्यम् काश्रौ १, ३, २४; २,  
३, ५; ३, ३, ३××; पाश्रु; पा १,  
३, १०; पावा ३, ३, १२७<sup>d</sup>.यथासंख्य-वचन- -नम्  
पावा १, ३, १०.यथा-सदृश<sup>a</sup>- -शम् वाश्रौ  
१, १, १, ६९.यथा(था-आ)सत्<sup>a</sup>- -नम्  
आश्रौ ६, ९, ४; १०, २०; शांश्रौ  
६, १३, ५; ७, १४, १२; द्राश्रौ;कौश्र ३, ९, ५४<sup>e</sup>.यथा-संघि<sup>a</sup>- -घि कप्रा ३,  
१८.यथा(था-आ)सन्न- -न्नम्  
वौश्र १, ५, ११३; श्रुप्रा १, १४२.यथा-सप<sup>a</sup>- -पम् आश्रौ  
२, १०, १४.यथा-सभक्ष<sup>a</sup>- -क्षम् आश्रौ  
५, ६, १९.यथा-समाम्नात<sup>a</sup>- -तम्  
शांश्रौ ६, १, ६; ७, १, ३; ९, ६, २०;  
१०, १, १२; आपश्रौ.यथा-समाम्नात<sup>a</sup>- -तः  
कौश्र ३, १३, ८; -तानि वैश्रौ  
१७, ८ : ४.यथा-समाम्नाय<sup>a</sup>- -यम् निसू  
६, ७ : ८; २८; ११ : १९××.यथा-समुदित<sup>a</sup>- -तम् वौश्रौ  
८, ६ : १२; १६, ८ : १३.यथा-संपद<sup>a</sup>- -पत् कौसू  
१११, ११; १२७, १३.यथा-संप्रकीर्ण<sup>a</sup>- -णम् शांश्रौ  
१८, २४, २६.यथा-संप्रेषित<sup>a</sup>- -तम् शांश्रौ  
३, ७, ९.यथा-संप्रैष- -पम् वौश्रौ ६,  
१० : २२, २३ : ८××; हिश्रौ २,  
३, ४१.यथा-संभव<sup>a</sup>- -वम् वैश्रौ  
२१, ७ : ५; जैश्र २, ४ : १०.यथा-सव<sup>a</sup>- -वम् कौसू ६३,  
१२; २३.यथा-सवन<sup>a</sup>- -नम् शांश्रौ ७,  
१, ४; काश्रौ ९, ९, ७; २४, ३,

११; २५, १२, ६; वौश्रौ.

यथा-सामन्<sup>a</sup>- -म वौषि १,  
१५ : २८<sup>१</sup>.यथा-सारा(र-अ)पकार<sup>1</sup>-  
-रम् शंघ २६३.यथा-सुख<sup>a</sup>- -खम् वैश्रौ ४,  
८ : ९; हिश्रौ १, ५, ८८; ४, ३,  
१३<sup>१</sup>; १०, २, १४; ४, ८; कौश्र ४,  
१८, १३; माश्र १, २, २१.यथासुख-चारिन्- -रिणः  
अप्राय ३, ७.यथासुख-सुख<sup>a</sup>- -खः  
वाघ ६, १३.यथा-सुष्टु<sup>a</sup>- -ष्टु वौश्रौ  
१०, १७; ६; २० : १३; २६ : १६;  
१९, २ : ७; २०, ३ : ६; आमिश्र  
३, ८, २ : २४; वौषि १, १५ :  
३३.यथा-सुक्त<sup>a</sup>- -क्तम् शांश्रु २,  
७, २८.यथा-सूत्र<sup>a</sup>- -त्रम् वौश्रौ २४,  
२२ : ६; २५, २७ : १२; २९;  
२८ : १७; २७, ११ : ६; २९,  
८ : ४; वौश्र ३, १, १०; -त्रे  
अप्रा ३, ३, २१.यथा-सूत्र-वचस<sup>k</sup>- -चः  
जैश्रौका १८३.यथा(था-अ)स्त<sup>a</sup>- -स्तम्  
माश्र १, १३, ८.यथा-स्तुत<sup>1</sup>- -स्तुत् काश्रौ  
२२, ५, ३.यथा-स्तुत<sup>m</sup>- -तम् आश्रौ ५,  
१५, १४; ६, ५, ९; ६, ९; शांश्रौ  
११, ३, २; वैताश्रौ ३५, १.

a) अस. । b) वस. । c) उप. = २दक्षिणा- । d) तु. पासि. । e) पामे. पृ २०१३ k द्र. ।

f) उप. = शेष- । g) पामे. वैप २, ३खं. सापयन् तैत्रा २, ४, ६, ५ टि. द्र. । h) मलो. कस. । i) अस. >  
पस. । ना. किवि. । = अर्थोपराधानुसारेण (तु. विवादरत्नाकरः [पृ ६६४]) । j) पामे. पृ २०१२ C द्र. । k) अस. >  
पस. । l) अस. उप. = (अमिष्टुत्- प्रमृ.) एकाह- । m) वैप २, ३खं. द्र. ।

यथा-स्तोत्रि(या >) य<sup>३</sup>-  
 -यम् शांश्रौ ११, ३, २.  
 †यथा-स्तोम<sup>३</sup>- -मम् शांश्रौ  
 १२, ८, ११; १४, १९, २; जैश्रौ  
 १५: २३; लाश्रौ १०, १४, ७.  
 २यथा-स्तोम<sup>३</sup>- -मम् क्षुस्  
 ३, १५: १.  
 †यथा-स्थान<sup>३</sup>- -नम् आश्रौ  
 ३, ८, ८; ४, १५, ७; ११, ६, ९;  
 शांश्रौ ८, १०, ११××; काश्रौ;  
 आश्रु ३, ६, ८†; हिश्रु १, १७,  
 ४†; -ने आश्रौ ७, ५, ५.  
 २यथा-स्था(न >) ना<sup>३</sup>-  
 -ना: शांश्रौ १४, १०, १२.  
 यथा-स्थित<sup>३</sup>- -तम् आश्रौ १,  
 ३, २२; काश्रौ २४, ६, १.  
 यथा-स्व<sup>३</sup>- -स्वम् आश्रौ ४,  
 ११, ३××; काश्रौ: वीश्रु ३, ९,  
 ७?†; -स्वे पा ८, १, १४.  
 यथा-स्वर<sup>३</sup>- -रम् वैताश्रौ  
 १, १०; २, १.  
 यथा-स्वलिङ्ग<sup>३</sup>- -ङ्गम् अप  
 १९, १, ९.  
 यथा(धा-आ)हित<sup>३</sup>- -तम्  
 वीश्रौ २४, ३० : १७.  
 †यथा(धा-आ)हत<sup>३</sup>- -तम्  
 आश्रौ ५, ६, ११; वीश्रौ.  
 २यथा(धा-आ)ह(त >) ता<sup>३</sup>-  
 -ताम् वाश्रौ २, १, ५, १३.  
 यथे(धा-इ)च्छा<sup>३</sup>- -च्छया  
 क्षप २२, ३, ५.  
 यथे(धा-इ)ज्या > ज्या<sup>३</sup>-  
 -ज्यम् माश्रौ २, ४, २, १९; ५,  
 १, ७, १५; १०, २५; २, ३, २१.

यथे(धा-ए)त<sup>३</sup>- -तम् वाश्रौ  
 २, ५, ३; १३××; शांश्रौ ८, ५, ७;  
 काश्रौ २, २, २१××; वापश्रौ ३,  
 ११, १; २०, १०××; काठश्रौ  
 ११०; वीश्रौ १; २० : २६; २, ५:  
 ३०××; लाश्रौ २, ४, १७†.  
 †यथे(धा-इ)ष्ट<sup>३</sup>- -ष्टम् काश्रौ  
 ५, १२, ७; १४, ४, १८; वीश्रौ;  
 पावा ८, १, १२†.  
 २यथे (धा-इष्ट >) ष्ट<sup>३</sup>-  
 -ष्टाम् नाशि २, ८, ८.  
 यथेष्ट-स्त्व- -त्वात् पावा  
 १, १, ७२.  
 यथेष्टा(ष्ट-आ)सन<sup>३</sup>- -नः  
 विध २८, २३.  
 यथै(धा-ए)त<sup>३</sup>- -तम् शांश्रौ  
 १७, १७, ९; जैश्रौ ३ : ९; ९ : ३;  
 जैश्रौका ३०; द्राश्रौ ४, ४, २६†.  
 †यथो(धा-उ)क्त<sup>३</sup>- -क्तम्  
 काश्रौ २, ६, २२; ४, २, ६××; वैश्रौ.  
 २यथो(धा-उ)क्त, क्त<sup>३</sup>-  
 -क्तस्य काश्रौ २४, ७, १९; मीसू  
 ६, ४, ३६; -क्ता कौसू ६८, ४१†;  
 अप ५८, १, १३; -क्तात् गौध  
 १०, ४; मीसू १०, २, ५९;  
 -क्तात् गौध ९, १; अप २०, ७,  
 १†; -क्तानि वैश्रौ १४, १५ : ८;  
 -क्ताम् माश्रु १, १०, ११; अप  
 ४१, ३, ६; ७; अशां २५, ५†;  
 -क्ते वैश्रु ६, १४ : ६; -क्तेन कप  
 २, ७, १०; अप १, ४२, २; अप  
 १ : ३६; -क्तेषु वैश्रु २, ८ : १३;  
 -क्ते: वैश्रु ५, १ : २; अप १०, १,  
 १; ७०†, १०, ७†.

यथोक्त-काल- -ले वैश्रु ६,  
 १९ : ११; -लेन विध २२, ३१.  
 यथोक्त-क्रम-समन्वा-  
 र्त्त्व- -धा: वैश्रौ १५, १९ : ३.  
 यथोक्त-जलदान-पिण्ड-  
 निर्वाप-ब्राह्मणभोजन<sup>३</sup>- -नेषु वैश्रु  
 ७, ८ : १२.  
 यथोक्त-देवता- -ता:  
 हिश्रौ २१, २, २७; ४९; ६३.  
 यथोक्त-वृष्ट<sup>३</sup>- -ष्ट: काश्रौ  
 २४, ७, २८.  
 यथोक्त-प्रकाश<sup>३</sup>- -शस्य  
 अश्रु ८.  
 यथोक्त-फल-द- -दम्  
 शंघ १०४.  
 यथोक्त-योग्य- -यौ  
 वैश्रौ ११, ९ : ६.  
 यथोक्त-वस्त्व(स्तु-अ)  
 संपत्ति<sup>३</sup>- -त्तौ कप २, ५, २१.  
 यथोक्त-विधि- -धिना  
 अप १९†, १, ५; ५८, १, १३;  
 ६८, ५, २८.  
 यथोक्त-विपरीत- -तः  
 अप २१, ७, ५.  
 यथोक्त-स्थान- -ने वैश्रु  
 ५, १५ : १.  
 यथोक्ता(क्त-अ)नुष्ठान-  
 -नम् वैश्रु १, ११, १३.  
 यथोक्ता(क्त-अ)र्ध- -र्धम्  
 वैश्रु २, ९, ८.  
 यथो(धा-उ)चित<sup>३</sup>- -तम्  
 जैश्रौका १३७; हिश्रु २, ६, ११†.  
 यथो(धा-उ)धारित<sup>३</sup>- -तम्  
 पावा २, ४, ११.

a) अतः। b) वैप २, ३६. द.। c) वस.। d) स्वयम् इति पाठः? यनि. शोषः (तु. हिश्रु २,  
 २०, २)। e) मत्तो. कस.। f) सप्र. यथे < > यथै इति पाठे.। g) तु. पासि.। h) = न्धेत-  
 उप. < धा √ ह । वा. क्वि.। i) कस. > दस.। j) कस. > पस.। k) सपा. आमिश्र २, २, ५ : १६  
 यथोदितम् इति पाठे.।

यथो (था-उ)च्छ्रित<sup>१</sup> - तम्  
काश्रौ ८, ८, २५.

१यथो (था-ओ)ढ<sup>२</sup> - ढम्  
आपय २०, ४; भाग्य २, ८: ७;  
८; हिग्य २, ८, ५<sup>३</sup>.

२यथो(था-ओढ>)ढा<sup>४</sup>-  
ढाम् आपश्रौ २, १५, २२; वौश्रौ  
२७, १: ११; भाश्रौ २, १८, ११;  
हिश्रौ १५, ४, ४२.

यथो(था-उ)त्तर<sup>५</sup> - रम् निस्  
५, १: १०.

यथोत्तरो(र-उ)पयोग-  
गम् वैश्रौ १२, १: २.

यथो(था-उ)व्यपत्ति<sup>६</sup> - त्ति  
कौस् ६३, २४; मीस् १०, ५, ८८.

यथो(था-उ)व्यस<sup>७</sup> - सम्  
वौश्रौ २०, ४: ३९; -ज्ञेन वौश्रौ  
२१, ४: २७; २२, १: १५.

यथो(था-उ)व्यादित<sup>८</sup> - तम्  
काग्य ४६, ६.

यथो(था-उ)त्साह<sup>९</sup> - हम्  
काश्रौ ६, १०, १३; २२, २, २२;  
५, ५; वौश्रौ १६, २: ९; द्राश्रौ १२,  
१, ११; लाश्रौ ४, ९, ७; ८, ४,  
१३; ५, १६××; कौग्य.

यथोत्साह-इक्षि (णा>)  
ण<sup>१०</sup> - णा: लाश्रौ ८, ११, ६.

१यथो(था-उ)दय<sup>११</sup> - यम्  
ऋप्रा ९, ८.

२यथो(था-उ)दय<sup>१२</sup> - यानि  
ऋप्रा ८, १५.

१यथो(था-उ)दित<sup>१३</sup> - तम्  
आमिग्य १, ७, ३: ७; २, ५: १६<sup>१४</sup>;  
४, ५: ३; ७: १२; ५, १२: १३; ७, ६:

२७; अय २५, १, ८.

२यथो(था-उ)दित, ता<sup>१५</sup> - ता:  
अय २२, १, ३; ऋप्रा १६, ३१;  
-तै: अय ६८, ५, २०.

यथो(था-उ)द्विष्ट<sup>१६</sup> - ष्टम्  
कौस् १३६, १३.

यथो(था-उ)द्वृष्ट<sup>१७</sup> - तम्  
आपश्रौ ७, २४, ४; वैश्रौ १०,  
१८: १७.

यथो(था-उ)प(ज्ञा>)ज्ञ<sup>१८</sup> -  
-ज्ञम् भाग्य १, २८: १.

यथो(था-उ)पदिष्ट<sup>१९</sup> - ष्टम्  
माश्रौ १, ६, २, १२; ४, १, २;  
वैश्रौ १४, १३: १; हिश्रौ १, १,  
१८; ११, १, २; ऋप्रा ११, ६४;  
पा ६, ३, १०९.

यथो(था-उ)पदेश<sup>२०</sup> - शम्  
काश्रौ २४, १, ३; आपय २, ७;  
७, २४××; वौग्य ३, २, ५;  
१८××; भाग्य २, ३२: २०××;  
आपय १, ४, १६××; हिग्य  
१, १; १३५××; ऋअ १,  
१, १; मीस् ३, ५, २१; ७, ५१.

यथो(था-उ)पपत्ति<sup>२१</sup> - त्ति  
आश्रौ २, २०, २; ४, १, २; काग्य  
२०, २; ३४, ३.

१यथो(था-उ)पपन्न<sup>२२</sup> - नम्  
वौश्रौ २०, २३: ३.

२यथो(था-उ)पपन्न<sup>२३</sup> - ज्ञेन  
वौग्य २, ११, ५२; भाग्य ३, १: ३.

यथो(था-उ)पपातम्<sup>२४</sup> आपश्रौ  
१५, २०, ९<sup>२५</sup>; भाश्रौ १, १६, ४;  
११, २१, ११<sup>२६</sup>.

यथो(था-उ)पपादम्<sup>२५</sup> शाश्रौ

७, १७, १८; वौश्रौ ७, १३:  
१०××; ९, १९: ३८<sup>२७</sup>; वैश्रौ;  
हिग्य १, १, २१<sup>२८</sup>.

यथो(था-उ)पपाद-मूत्र-  
पुरीष<sup>२९</sup> - प: गौघ २, ४.

यथो(था-उ)पपादिन्->  
०दि-पञ्च<sup>३०</sup> - ञ्च: कौस् १३८, २.

यथो(था-उ)पमुक्त<sup>३१</sup> - क्तम्  
काश्रौ १४, ५, ३६.

यथो(था-उ)पलब्ध<sup>३२</sup> - ष्धम्  
हिपि १७: २०.

यथो(था-उ)पलम्भम्<sup>३३</sup>  
आपश्रौ ६, ४, ३; ७, ९; हिश्रौ  
३, ७, १८; निस् ८, ५: २७;  
गौग्य २, ८, २३.

१यथो(था-उ)पस्थित<sup>३४</sup> - तम्  
द्राश्रौ ७, ३, ६; लाश्रौ ३, ३, १०.

२यथो(था-उ)पस्थित<sup>३५</sup> -  
-तम् वौश्रौ ३०, २०: २७; ३०;  
हिश्रौ १४, ३, ४६.

यथो(था-उ)पहित<sup>३६</sup> - तम्  
माश्रौ ६, १, ७; २९.

यथो(था-उ)पाकृत<sup>३७</sup> - तम्  
आपश्रौ २०, १७, १०.

यदा आश्रौ २, ९, ३××; शाश्रौ;  
आपश्रौ २१, २०, ३<sup>३८</sup>; वैताश्रौ  
३४, ९<sup>३९</sup>; यदाऽयदा भाग्य  
१, २५: १६.

यदि आपश्रौ ९, १८, १३<sup>४०</sup>; वौश्रौ  
१४, १: १९; ३: २××;  
भाश्रौ.

यद्- पाउ १, १३२; पा ८, ४, ३०;  
पाग १, १, २७; ५, ४, १०७; यस्  
क<sup>४१</sup>आश्रौ १, ६, ५; ९, ५; शाश्रौ;

a) अस. । b) मलो. कस. । c) वस. । d) पासे. पृ २०१६ । द्र. । e) उस. उप. णमुलन्तम् ।  
f) परस्परं पासे. । g) णदम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. भाष्यम्, मूको.) । h) अस. > वस. >  
द्वस. । i) कस. । j) पासे. पृ २००८ । द्र. । k) सङ्ख्य. मदारा<sup>४२</sup> इति पाठः ? 'दा रा<sup>४३</sup> इति शोधः (तु.  
आपश्रौ., O.) ।

आपश्रौ १६, १६, १५<sup>३</sup>; माश्रौ  
१, ३, ५, १७<sup>५</sup>; वाश्रौ १,  
३, ७, १७<sup>५</sup>; वैताश्रौ २८,  
२७<sup>५</sup>; ऋश्रौ ४६, १९<sup>३</sup>; ५२,  
३; यत्स्यत् अश्रौ १२, ३<sup>३</sup>;  
यदि पा ३, २, ११३; ११४; ३;  
१६८.

यक,का- पा ७, ३, ४५;  
पावाग ७,३,४५<sup>५</sup>; -कः शुभ्रा  
४,७५<sup>५</sup>; -किका काश्रौ २०,  
६,१८; वीश्रौ- १५,३० : ४.  
यच्छन्दस्- -न्द्राः कौष्ट २,  
४,१६; शांष्ट २,७,१८.

यच्छन्दस्(क>)का-  
-कायाम् निसू १,१३ : २१.  
यज्-जाति->यजाती(य>)  
या- -या निसू २,४ : १०.

यतम- पा ५, ३, ९३; पाग १,  
१, २७; -कमः वाश्रौ १, ५, ५,  
७; अप्रा. ३, ४, १.

यतर,रद्,रा- पा ५,३,९२; पाग  
१, १, २७; -रः आपश्रौ २२,  
१६,१२; भाश्रौ ९,१३,८; हिश्रौ  
१७,६, ३५; -रत् वाधूश्रौ ४,  
६४<sup>३</sup> : ७; -रस्मिन् भाश्रौ २, ५,  
२; हिश्रौ १, ५, ३४; ७, १४;  
९, ५, १३; -रस्मै भाश्रौ ९, २,  
८; -रस्याम् भाश्रौ ६, ३, १७;  
-राः वीश्रौ २०, १९ : ३५;  
अप्रा ३, ४, १५; -राः वाधूश्रौ  
४, ६७ : ८; -रे वीश्रौ १८,  
१३ : १३; -रेण वाधूश्रौ ३, ९ :  
२१; -रेयाम् वीश्रौ १८, ४६ : १६.

यत्-यति- -ति आमिष्ट ३, ७,  
१ : ८<sup>३</sup>; वीपि १, १७ : ८<sup>३</sup>; ऋप्रा  
५, १८.

यत्-कर- पा, पावा ३, २, २१.  
यत्-काम- -मेन वाधूश्रौ ४,  
७४ : २८.

यत्-काम,मा- -मः शांश्रौ  
४, ८, ५, १०, ३; आपश्रौ; -मा  
आपश्रौ १९, १८, ४; हिश्रौ २२,  
२, ४; -माः शांश्रौ १०, २१,  
१४; वीश्रौ; या १०, ४३<sup>५</sup>.

यत्-कारिन्- -री वीश्रौ १४,  
३० : १२; हिष्ट १, १९, ३.

यत्-काल- -लाः शैशि २००.

यत्-कृत- -तौ वेज्यो ३७.

यत्-क्रिया-युक्त- -क्ताः पावा  
१, ४, ६०.

यत्-वृष्ट- -ष्टेन शांश्रौ १४,  
२२, ६.

यत्-प्र-पर- -रः तैप्रा ४, ३३.

यत्-प्रयोग- -गात् अपश्रौ १, ४, ३.

यत्-सामन्- -मा निसू ८, ६ : ४.

यत्-स्थल- -ले भाशि १२८.

यत्-स्थान- -ने मीसू ९, १, ५४.

यद्-त्वामन्तं वाश्रौ ३, ४, १, ५.

यद्-अनुपूर्व- -र्वाणि हिश्रौ २,  
२, ३३.

यद्-अक्ष- -न्नः निसू १०, ९ :  
१९.

यद्-अभिहार- -न्म् वीश्रौ २४,  
९ : ५.

यद्-अमीच्या- -ज्या मीसू ९,  
२, ५८.

यद्-अर्थ- -र्थः निसू ७, ११ : २२.

यद्-अवसान- -नः लाश्रौ ६, ६,  
१; छसू ३, १३ : ८; -नम् लुसू  
३, १३ : ९.

यद्-अश(न>)ना- -ना वीश्रौ  
७, १५ : ३३; ८, ४ : ३१;  
१२ : ४५.

यद्-उत्पत्ति- -तौ मीसू १, ४, २.

यद्-कच्छा- -पाग २, १, ७२;

-च्छया वीध २, १०, ५२; काश्रौ

७, ३२; वृदे १, २५; २८; ५, ९९;

-च्छायाम् आपघ १, १४, ५;

हिघ १, ४, ३८.

यादृच्छिक- -कम् वृदे  
१, ३०.

यदृच्छ-ज- -जः कौसू  
१३५, ९.

यदृच्छा(च्छा-अ)शक्तिजानु-  
करण->ण- -णाः आशि  
६, ६.

यदृच्छा(च्छा-अ)शक्तिजानु-  
करण-प्लुत्याद्य(दि-अ)र्थ- -र्थः  
पाप्रवा २, १.

यदृच्छा-संनिपात- -ते आपघ  
१, २८, ८; हिघ १, ७, ४४.

यदृच्छो(च्छा-उ)पनत- -ते  
ऋप्रा ११, ३५.

यद्-दक्षि(णा>)ण- -णः  
जैश्रौ १ : १८.

यद्-देवत,ता- -तः आश्रौ ५,  
३, २; शांश्रौ १३, २०, ९;

आपश्रौ ७, २२, ४; या ७, ४;

-तम् वाग १, २५; -ताः आपश्रौ

a) सपा. मा १२, ६५ प्रमृ. यम् इति पाभे. । b) सपा. तै १, १, १०, २ यम् इति पाभे. । c) वैप १  
द्र. । d) तु. पागम. । e) वस. । f) पाभे. वैप १, १२९४ a द्र. । g) कस. । h) वृस. ।  
i) दस.> वस. । j) वस. उप. = प्रचुर- । k) भाप. । कस. उप. < कच्छ (इच्छायाम् वि-  
श्रौ.) । l) तद्रमवीचिप् टक् प्र. । m) उस. पूष. हस्वः (पा ६, ३, ६३) । n) तद्वति वृत्तिः । o) उप.  
= २२क्षिणा- ।

१९, १६, १०; -ते पाठ ३, ११, १०.

यद्-देवता-> ल्य, ल्या- ल्यः काठश्री ६३; वीश्री १, १४ : १०; ४, ५ : ६x५; वैश्री; -त्यम् वीश्री १३, १:१५; वैश्री ३, २०:१; द्रागृ २, १, २३; ऋश्र २, १, ९४; -त्या अश्र १, १९; ३२x५; -त्याः वाधुश्री ४, ८७ : १०; -त्यायाम् निसू १, १३ : २२; -त्यासु लाश्री ६, ९, ४.

यद्-दैवत<sup>a</sup>- -त्तम् अप्राय २, २; ३.

यद्-दैवत्य<sup>b</sup>- -त्यम् आमिष्ट ३, ९, ३ : १९.

यद्-द्वन्द्व<sup>b</sup>- -न्द्वेषु द्राश्री १०, १, १६०; लाश्री ३, ९, १८०.

यद्-धि (< हि) -त्तु-पर- -रम् पा ८, १, ५६; -रस्य पावा ८, १, ५६.

यद्-युक्त- -क्तः हिष्ट १, २४, ६<sup>d</sup>.  
१ यद्-योग- -गः भासू २, १४; -गात् वृदे ७, १०९; पावा ८, १, ७१; -गो माशि ६, ४.

२ यद्-यो(ग>)गा<sup>e</sup>- -गा पावा ४, ३, १२०.

यद्-योनि- -नौ विध ३०, ४५.

यद्-वत् याशि २, ६१.

यद्-वाहिष्ठीय<sup>f</sup>- -> \*य-वत् लाश्री ६, १, ३.

यद्-वित्त<sup>g</sup>- -त्तौ वीश्री १, ४, ५<sup>d</sup>.  
यद्-वृत्त- -त्तात् पा ८, १, ६६.  
यद्-वृत्तो(त्त-उ)पपद<sup>h</sup>- -दात्

शुप्रा ६, १४.

यन्-भात्र- -त्रम् विध २३, ३५.

यन्-मुख्य<sup>i</sup>- -ख्याः आपश्री १२, २८, १२.

यस्तेम (< द>)दा<sup>j</sup>- -दा निसू ६, २ : २५; -दाम् निसू ६, २ : ७.

यातकतीय<sup>k</sup>- -यम् शाश्री १८, १९, ३.

या-दृश- -दृक् आपश्री ९, ५, ८; ६, १; २; ५; ६; वीश्री; -दृक्स्मिन्<sup>l</sup> आप ४८, ११५; निघः ४, ३; या १, १५; ६, १५<sup>क</sup>.

या-दृश- -शः निसू ३, १२ : ३१; ४२; भाशि १२८; नाशि ११, ८, ४; -शम् वैश्री ३, ९ : ६;

आप ३१; २; ३; ५४; १; १; वीध; -शो निसू ३, १३ : ३९; ४, ७ : २१; या ६; १५<sup>म</sup>; -शेन

आज्यो १२, ७; -शो अप ५५, १, ५; २, १; ३, १; ४, १; ५, १; ६, १.

यादृशी- -शी याशि २, ७५; -शीम् आमिष्ट ३, ७, ३ : ६.

या-वत्-पा ५, २; ३९; पाग १, ४, ५७; -वत् आपश्री ८, १०, १<sup>न</sup>;

शाश्री; -हिश्री १, ७; २६<sup>o</sup>; पा २, १, ८; -वत्-वत् निसू ३, ७ :

१३; -वत् आपश्री ७, १०, ८<sup>प</sup>;

शाश्री; -वत् आपश्री ५, ४, ४; ७, ३, ८; वीश्री; -वत्-वत् आपश्री ३, १५; हिष्ट १, ५४;

-वत्तम् शाश्री ४, १८, ५<sup>q</sup>;

वागृ १५, ११; शोध; पावा १,

२, ६४; -वत्-वीश्री ११, ११ : १८x५; माश्री; -वत्-विधः

या १, १२; -वन्तः आपश्री १, ३, १; ४, १, १९; शाश्री;

-वन्तम् आपश्री १, २५, ५; २१, ५, ४; १०, ३; वीश्री;

-वन्ति शाश्री ८, ७, ५; १४, ७, १४; वीश्री; -वन्तिऽ-

वन्ति निसू ९, ११ : ३२;

-वान् आपश्री ७, ३; १३; १४x५; वीश्री.

यावती- -ती काश्री २६, ७, ५४<sup>र</sup>; आपश्री १०, ४, १०;

१३, ३, ३<sup>स</sup>; वीश्री; -तीः आपश्री १२, २३; १३; २२,

१, ७; वीश्री; -तीनाम् माश्री १, २, १३; कौश्री ३, ५, ९;

शाश्री; -तीभिः माश्री ३, ७, १; छसू १, ७ : १४५ १९;

आगृ २, ४, ६; -तीम् आपश्री १५, १, १२; माश्री ११,

१, १७; वाधुश्री; -तीषु अशा २०, ३; अश्र ८, ७; -त्यः शाश्री

१५, ९, ४; आपश्री ३, १७, १x५; वीश्री; -वत्यऽ-वत्यः आपश्री ८,

५, ७.

यावच्च (< श) राव<sup>t</sup>- -वम् आश्री १२, ८, ३५.

यावच्च (< श) कं (रा) ><sup>u</sup>- -रम् आपश्री १, ६; १३; माश्री १, ६, १५.

यावच्च (< श) स्त्र<sup>v</sup>- -स्त्रम् शाश्री १८, २१, १.

a) वस. । b) =साम-विशेष- (तु. P.W. प्रसू.)<sup>w</sup> व्यु. ? । c) पृ १३, १५ संस्थ. द्वन्द्वेषु इति नेष्टम् ।

d) सपा. आमिष्ट १, ५, ४ : ४१ ऋयद्वित्तः इति, वीश्री १, ४, ५ यद्वित्तौ इति च पाठे. । e) =साम-विशेष- ।

f) <यद्-वाहिष्ठीयम् (ऋ ५, २५, ७) । g) =ऋव- । <यस्ते मुदः (ऋ ६, १९, ७) । h) विप. (नवर्च- ) । <या

त ऊत्तिः (ऋ ६, २५, १) । i) वैप १, १, १ । j) श्वाः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. दु. स्क्र. राज.) । k) याव

इति पाठः ? यनि. शोधः । l) विप. (यावच्छराव-परिमित-] सौम्य-चरु-) । m) वस. ।

यावच्-छे( <शे)ष<sup>a</sup> -पम्  
 काश्रौ १२, ६, २०.  
 यावच्-छु( <श्रु)ति<sup>a</sup> -ति  
 मीसू १०, ७, ६२.  
 यावज्-जीव<sup>b</sup> -> षक-  
 -कम् वैश्र २, १८ : १४.  
 यावज्जीव-कृत - तम्  
 वाघ २८, १९.  
 यावज्जीव-प्रयुक्त-  
 -कानाम् वौश्रौ २५, १ : १;  
 -कानि वौश्रौ २१, १ : २; २५,  
 १ : ८.  
 यावज्जीव-प्रयोग- ग्वात्  
 मीसू ९, १, ३५.  
 यावज्जीविक<sup>c</sup> -कः मीसू  
 २, ४, १; -कम् आश्रौ ३, १४,  
 २२.  
 यावज्-जीवम् आश्रौ ३, ११,  
 ३; शाश्रौ ३, १, ८; काश्रौ; पा  
 ३, ४, ३०.  
 यावतिथ- -थः पावा १, ३,  
 ११.  
 यावत्-कपाल<sup>d</sup> -लम् काश्रौ  
 २, ५, २०; माश्रौ १, २, ३, २२;  
 वाश्रौ १, ३, १, २१; वैश्रौ ४,  
 १० : ७.  
 यावत्-कर्मन्<sup>e</sup> -र्म वौश्रौ  
 २९, १३ : १३.  
 यावत्-काम<sup>f</sup> -मम् हिश्र १,  
 १३, १८.  
 यावत्-काल<sup>g</sup> -लम् शाश्रु  
 ६, १, १३.  
 यावत्-कृत्वस्(ः) वौश्रौ १०,  
 १६ : १४ x x; वाधूश्रौ.  
 यावत्-जाल<sup>h</sup> -लम् वैश्रौ

११, ९ : १०.  
 यावत्-कृत<sup>i</sup> -तम् आपश्रौ  
 १०, २३, ३; वौश्रौ ६, १३ : ८;  
 २९, १ : ४; भाश्रौ.  
 यावत्-पद<sup>j</sup> -दम् आपश्रौ  
 १९, १४, १९; हिश्रौ २३, ३,  
 १७.  
 यावत्-परिमि(त >)ता-  
 -ताः हिश्रौ १०, ३, ३.  
 यावत्-पुरा(रा-आ)दि-  
 -दिषु पावा ३, ३, ४.  
 यावत्-पुरा-निपात- -तयोः  
 पा ३, ३, ४.  
 यावत्-पूर्वपक्ष<sup>k</sup> -क्षम् वैश्रौ  
 २०, २२ : २.  
 यावत्-प्रमाण,णा<sup>l</sup> -णा  
 काश्रु ३, ७; १२; ७, ३३; आपश्रु  
 ३, ११; हिश्रु १, ५०; -णानि  
 काश्रु ६, ७.  
 यावत्-प्रवर- -नेषु वौश्रौ प्र  
 २ : ४.  
 यावत्-सं(ख्या >)ख्य<sup>m</sup> -  
 -ख्यम् विश्र १९, १२.  
 यावत्-संनिपात<sup>n</sup> -तम्  
 आपध २, १, २१; हिश्र २, १, २०.  
 यावत्-संबन्ध<sup>o</sup> -न्धम् पाश्रु  
 ३, १०, १७.  
 यावत्-सहस्र<sup>p</sup> -सम् आपश्रौ  
 ८, २२, ४; हिश्रौ ५, ६, १०.  
 यावत्-सामिधे(नी >)नि<sup>q</sup> -  
 -नि काश्रौ ३, १, ९.  
 यावत्-सिद्धि<sup>r</sup> -दि वौश्रौ  
 १३, १ : ८.  
 यावत्-सु(त्या >)स्य<sup>s</sup> -  
 -स्यम् वैश्रौ १२, ७ : २०.

यावत्-स्मृति<sup>t</sup> -ति काश्रौ  
 १४, ५, २१.  
 यावत्-स्व<sup>u</sup> -स्वम् काश्रौ  
 ४, २, २८; मीसू ११, १, ४६;  
 ४७.  
 यावद्-अग्नि-मान<sup>v</sup> -नाः  
 हिश्रौ ११, ५, २२<sup>d</sup>.  
 यावद्-अङ्ग- > यावद्-ङ्गी-  
 न<sup>w</sup> -नम् कौसू ४०, १७; अप  
 ४६, ६, १.  
 यावद्-अध्ययन<sup>x</sup> -नम्  
 आपश्रौ १५, २१, २; वौश्रौ ९,  
 २० : ३; भाश्रौ; आपध १, १३,  
 १३<sup>e</sup>.  
 यावद्-अध्याय<sup>y</sup> -यम् हिश्र  
 १, ४, २७<sup>f</sup>.  
 यावद्-अन्त<sup>z</sup> -न्तम् वैश्र  
 २, १२, ७; -न्ते<sup>g</sup> आपश्रौ ९,  
 १५, १२; हिश्रौ १५, ४, ३२.  
 यावद्-अर्थ<sup>h</sup> -र्थम् वैश्रौ  
 १४, ६ : २; मीसू १०, ६, ७४.  
 यावद्-अर्थ-विस्ता(र >) -  
 रा<sup>i</sup> -राम् वैश्रौ ४, ११ : २.  
 यावद्-अर्थ-संभाषिन्<sup>j</sup> -पी  
 आपध १, ३, १६; वौध १, २, २४;  
 हिश्र १, १, ८९.  
 यावद्-अर्थ<sup>k</sup> -> र्था-  
 -र्थां हिश्रौ १, ६, ६०.  
 यावद्-अह<sup>l</sup> -हे काश्रौ ७, ९,  
 १७; द्राश्रौ १, ३, ४; लाश्रौ १, ३,  
 १.  
 यावद्-आदिष्ट<sup>m</sup> -ष्टम् शाश्रौ  
 ५, ११, ८.  
 यावद्-आदेश<sup>n</sup> -शम् निम्  
 ३, १ : १४.

a) अम. । b) उप. = आयुस्. । c) तत्रभवीयप् ठञ् प्र. । d) उप. = इताल. । e) वैप १ द. ।  
 f) वस. । g) कय. > वस. । h) सपा. वैश्रौ १८, ११ : २७ यावदाग्नाताः इति पाभे. । i) परत्परं पाभे. ।  
 j) विर. इति भाष्यम्? । k) वैप २, ३खं. द. । l) क्त. (वृ. ३।।४.) ।

यावद्-आपद<sup>a</sup>- -दम् कागृउ  
४५: १८.

यावद्-आस<sup>b</sup>- -सम् माश्रौ  
४, १, १२.

यावद्-आभूत-संख्य<sup>c</sup>-  
-वम् काध २८१: ६.

यावद्-आम्नात<sup>d</sup>- -तम्  
वौगृ १, ४, ४३, वौपि २, ८, ११;  
-तेन हिशु ३, ३<sup>d</sup>.

यावद्-आम्नात<sup>e</sup>- -ता:  
वैश्रौ १८, ११: २७<sup>f</sup>; -तेन  
वौश्रौ २२, ११: १८; २५,  
३१: १०.

यावद्-आम्नात<sup>g</sup>- -नेन  
आपशु ८, ३<sup>d</sup>.

यावदाम्नान-सारूप्य-  
-प्यम् आपशु २१, ९; हिशु ६,  
६७.

यावद्-आयाम<sup>b</sup>- -मम् हिशु  
१, २.

यावद्-इष्ट(का>)क<sup>b</sup>-  
-कम् काश्रौ १८, ६, १३.

यावद्-उक्त<sup>b</sup>- -कम् काश्रौ  
५, ६, १२; १५, ९, २८; २६,  
२, ५; हिश्रौ.

यावद्-उक्त<sup>c</sup>- -कम् काश्रौ  
९, १३, २३; १०, ६, १२.

यावद्-उपर<sup>b</sup>- -रम् वैश्रौ  
१०, ८: १३.

यावद्-गाव<sup>b</sup>- -वम् हिपि  
१५: ४<sup>f</sup>.

यावद्-गृहीत-> ँतिन्-  
-ती द्राश्रौ ७, २, ६; लाश्रौ ३,  
२, ६.

यावद्-ग्रहण<sup>b</sup>- -णम् पागृ  
२, ५, १५; आगिगृ १, १, ४:  
४७; ३, ६, २: ६; वौपि १,  
९: १५; वागृ ६, २९; हिगृ १,  
८, १४.

यावद्-ग्रास<sup>b</sup>- -सम् आपध  
२, १९, ५; हिध २, ५, ७७.

यावद्-घृत<sup>b</sup>- -तम् माश्रौ २,  
१, ३, ४२.

यावद्-घृतान्वक्त<sup>b</sup>- -क्तम्  
वैश्रौ १२, १७: २.

यावद्-दध- -धम् वौश्रौ  
१०, ४६: ३०.

यावद्-ध(ह)विस्<sup>b</sup>-  
-वि: काश्रौ ३, ३, २५; ४, ३.

यावद्-धा काश्रौ १६, ४,  
१६; द्राश्रौ ३, १, ७; लाश्रौ १,  
९, ७.

यावद्-यजुस्<sup>b</sup>- -जु: वैश्रौ ९,  
१: १०; द्राश्रौ १, १, ५<sup>f</sup>; लाश्रौ  
१, १, ५<sup>f</sup>.

यावद्-यज्ञ<sup>b</sup>- -ज्ञम् आपश्रौ  
२०, ३, २; हिश्रौ १४, १, २५.

यावद्-यूप<sup>b</sup>- -पम् आपश्रौ  
२२, १०; १७.

यावद्-रात्र<sup>b</sup>- -त्रम् हिपि  
१४: ६; -त्रा आपश्रौ १३,  
२५, ९<sup>f</sup>.

यावद्-रात्रि<sup>b</sup>- -त्रौ हिश्रौ ९,  
६, ३४<sup>k</sup>.

यावद्-वचन<sup>b</sup>- -नम् द्राश्रौ  
१२, २, १९; लाश्रौ ४, १०, २०.  
यावद्द्वय- -येन हिश्रौ १८,  
२, १०.

यावद्-वि(धा>)ध<sup>c</sup>- -धम्  
वौश्रौ १०, १९: ९.

यावद्-वेदम्<sup>l</sup> पा ३, ४, ३०.

यावद्-न्यासि<sup>m</sup>- -सि या ३,  
१५.

यावन्-निगद<sup>b</sup>- -दम् निस्  
२, ८: २.

यावन्-मन्त्र<sup>b</sup>- -न्त्रम् आपश्रौ  
१९, १५, २; वौश्रौ १९, १०: १;  
हिश्रौ २३, ३, २३.

यावन्-मात्र<sup>b</sup>- -त्रम् वौश्रौ  
३, २६: २; ६, ७: १२; १९:  
१९x; वौध २, १०, ५९<sup>f</sup>;  
या ७, ३१<sup>f</sup>; -त्रान् वौश्रौ २०,  
७: ११; -त्रे वौश्रौ २४, २३: ६.

यावन्मात्री- -त्री: वौश्रौ  
१६; ३: ५; -त्रीम् वौश्रौ २२,  
२: २.

यदा प्रम्. यद्- द्र.

यदि, >दी<sup>b</sup> आश्रौ १, ६, १; २, १,  
१८x; शाश्रौ; आपमं २, १९,  
७<sup>f</sup>?; आगिगृ ३, ५, १: १५<sup>f</sup>?;  
वौपि १, १: १३; भागृ २,  
२७: ३; हिगृ १, १४, ४<sup>f</sup>?;  
२, ११, १<sup>f</sup>?; ऋप्रा ७,

a) अस. समासान्तप् टच् प्र. उंसं. (पा ५, ४, १०७)। b) अस.। c) अस. >पस.। d) सपा.  
तेन<> नेन इति पाभे.। e) कस.। f) पाभे. घृ २०२० h द्र.। g) वस.। h) समासान्तः अच् प्र.  
उंसं. (पात्रा ५, ४, ७५)। i) तु. धन्वी; वैतु. MW. विप. इति। j) वस.। तद्वति वृत्तिः। k) परस्परं पाभे.।  
l) उप. <√विद् (लाभे)। m) अस. (तु. रक. Pw. प्रम्.; वैतु. अन्ये उत्तरेण समस्तं न्यासिभूतः इति पृथक्  
पदमिति)। n) वैप १ द्र.। o) पाठः? यति इति शोधः (तु. सपा. ऋ १०, १८, ६ प्रम्. [तु. Old.])।  
p) दिवि प्रं इति पाठः? यनि. च विप्रं इति च द्विपदः शोधः (तु. सप्र. वौपि.)। q) यदिति इति पाठः? यनि.  
शोधः (तु. आपमं २, २२, १० भागृ. च)।

३३१; ३४१; छुप्रा ३, १२९१;  
 तैप्रा ३, १२१; पा ८, १, ३०.  
 ङयद्- -इवः अप ४८, ७८; निघ  
 २, ३; -इवे आश्रौ ९, ५, २.  
 ? यद्या वाश्रौ ३, २, ५, २४.  
 ? यद्वाहि(द्य>) यद्या- -टया या  
 १४, ११<sup>०</sup>.  
 यन्तव्या- प्रमृ. : √यच्छ द्र.  
 √यस्त्र पाषा. चुरा. पर. संकोचे.  
 यन्त्र- प्रमृ. √यच्छ द्र.  
 ? यन्नयः<sup>०</sup> या ३, १६१.  
 ङयस् पाषा. भ्ना. पर. मैथुने,  
 यभति वौश्रौ १५, ३० : १;  
 यभ शाश्रौ १२, २४, २.  
 यियप्यते शाश्रौ १६, ४, ६;  
 यीयप्यते आश्रौ ८, ३, २४<sup>०</sup>.  
 यीयप्यमा(न>)ना- -ना शाश्रौ  
 १२, २३, ५१<sup>०</sup>.  
 यम् पाषा १, ४, ५७.  
 √यम्, ययम- प्रमृ. √यच्छ द्र.  
 रयम, मा<sup>०</sup>- ङम आश्रौ २, १९,  
 २२xx; शाश्रौ; -मः आश्रौ २,  
 १९, २१<sup>०</sup>; १०, ७, २<sup>०</sup>; शाश्रौ  
 ६, ३, २<sup>१</sup>; १५, ९, २<sup>०</sup>; १६, २,  
 ४<sup>०</sup>; आपश्रौ; माश्रौ १, ३, ४;  
 २३१<sup>०</sup>; वाश्रौ १, ३, ६, १६१<sup>०</sup>;  
 अप ३२, १, १११<sup>१</sup>; वाष. ११,  
 २०<sup>०</sup>; १४, ३०<sup>०</sup>; शंष १४४;  
 १८२, २२३; ४४३; ऋश्र २, १०,  
 १४<sup>०</sup>; वृदे १, १२३; २, ११;  
 ४८<sup>०</sup>; ७, ६४; ८, ४८; साश्र १,  
 १२<sup>०</sup>; २, ४४१; अश्रम २<sup>०</sup>; निघ  
 ५, ४; ६; या १०, १९६<sup>०</sup>; २०<sup>१</sup>;

१२, २८; वेज्यो ३४<sup>१</sup>; -मस्  
 आश्रौ ५, १९, ५१; शाश्रौ; आपश्रौ  
 १२, २०, ४; भाश्रौ ९, १८, ५;  
 माश्रौ २, ५, ३, ७; ६, १, २, २६<sup>०</sup>;  
 वाधूश्रौ ३, ९० : १<sup>६</sup>; ९१ :  
 १<sup>६</sup>; ४<sup>६</sup>; ४, ६१ : ८; वैश्रौ १५,  
 २३ : १३<sup>०</sup>; हिश्रौ ८, ५,  
 ३५<sup>०</sup>; १३, ८, ३३; १५, ४,  
 ३८<sup>०</sup>; आमिष्ट २, ६, ३ : ३०<sup>०</sup>;  
 वौष्ट ३, ४, १२; हिपि १७ :  
 १७; जैष्ट २, ९ : १६<sup>१</sup>; अपश्र ३, ५,  
 ३६; शंष ११६ : १८; ४०<sup>०</sup>; अश्र  
 ५, २४; ६, २९; या ११, ३४<sup>०</sup>xx;  
 -मयोः ऋप्रा ९, ४४१; -मस्य  
 आपश्रौ १, १०, ६xx; वौश्रौ  
 १७, ४६ : ३<sup>०</sup>; भाश्रौ; वाधूश्रौ  
 ३; ९१ : २<sup>३</sup>; ३-५; अशां १४,  
 २; वौष २, २, ३४<sup>०</sup>; विष  
 ४३, ३३<sup>०</sup>; चाश्र ४२ : १४<sup>०</sup>;  
 वेज्यो ३६<sup>०</sup>; -मा आपश्रौ  
 २३, ७, ५<sup>०</sup>; -माः वौश्रौ २६,  
 ११ : २३<sup>०</sup>; ३२ : १९<sup>०</sup>; निस्  
 १०, २ : ३७; या १४, १९१;  
 -मानाम् अप ४६, १, ९<sup>६</sup>;  
 -माभ्याम्<sup>०</sup> काश्रौ २२, १, ३३;  
 वौश्रौ १८, ५० : १; लाश्रौ ८,  
 १, १९; -माम् आश्रौ ११, ५,  
 ४<sup>०</sup>; -माय शाश्रौ ४, ४, ११<sup>०</sup>xx;  
 काश्रौ; आपश्रौ १, ८, ६;  
 वौश्रौ २७, ३ : १७<sup>०</sup>; आमिष्ट  
 १, २, २ : ९<sup>०</sup>; ६, ३ : ४७<sup>०</sup>;  
 काष्ट ५४, १२<sup>०</sup>; कागृष्ट ४२ :  
 १९; वौष्ट ३, ४, ६; ९, ३;

वौषि ३, ६, ५; भाष्ट ३, ९ :  
 ८; वाष्ट १७, ६; वैष्ट ३, ७ :  
 ११; २० : १२; हिपि १८ :  
 ४; कौस् ८४, ३; -ममे  
 आश्रौ ४, ९, ४; शाश्रौ; -मेन  
 वौश्रौ ३, ११ : २३<sup>१</sup>; आमिष्ट;  
 अप्राय ५, ६; अप ३४, १, ५;  
 -मेम्यः अप ४३, ५, ५५<sup>१</sup>;  
 -मेसु अप ४६, १, १०; अश्र १८,  
 ४; अपं ४ : ४१; -मौ<sup>०</sup> आश्रौ  
 ३, १३, १२; शाश्रौ ३, ४, १४; ५,  
 ११<sup>१</sup>; १४, २९, ७; काश्रौ १५,  
 ३, १६; आपश्रौ ९, १४, ७xx;  
 वौश्रौ १८, ५० : २५; भाश्रौ ९, १६,  
 १३; वैश्रौ २०, ३० : १; हिश्रौ  
 १५, ४, १४; कौष्ट ३, ५, १०;  
 शांष्ट ३, १०, ४; कौस् १०९, १;  
 अप्राय ५, ५; वृदे ६, १६३; या  
 १०, २१<sup>१</sup>; १२, १०.  
 यमी<sup>०</sup>- -मि या ११,  
 ३४<sup>१</sup>; -मी अप ४८, १३९<sup>१</sup>;  
 ऋम; -मीम् वृदे ६, १५४; या  
 १२, १०; -म्यम् अश्र १८, १<sup>१</sup>;  
 -म्या<sup>०</sup> आमिष्ट ३, ६, ३ : २६;  
 ८, २ : ४५; वौषि १, १२ : १;  
 १५ : ५१.  
 यमी-यम- -माभ्याम्  
 गोषि १, ५, २०<sup>१</sup>.  
 रयाम<sup>०</sup>- -मः वैताश्रौ ४३, ३२;  
 साश्र १, ३२०; -मम् वाश्रौ ३,  
 ४, ३, १५; छुस् ३, ४ : ५<sup>०</sup>; ११ :  
 ४<sup>०</sup>; कौस् १३२, १<sup>१</sup>; ऋश्र २,  
 १०, १४; १३५; अश्र ६, ११६<sup>१</sup>;

a) वैष १ द्र.। b) षिप्या इति राज.। c) पाभे. पृ १३०२ I द्र.। d) = यम-राज-। e) सपा. तं ३, २, ५,  
 ४ आपश्रौ ९, १२, ११ हिष्ट २, २६, ९ वौष २, १, ३८ अमिः इति पाभे.। f) = नृशु-। g) = स्थिति-कृत-। h) = ऋषि-  
 विशेष-। i) = अमि-। j) = भरणीनक्षत्र-देवता-। k) अर्थः ?। l) = शनिधरप्रह-देवता-। m) = भरणी-  
 नक्षत्र-। n) = युगल- (द्विगुण-).। o) विष. (यमदेवत्व-] छाग-).। तद्वति वृत्तिः। p) = युगल-। q) पाभे.  
 वैष १, २०१० I द्र.। r) विष. (पशु-, सूक्त-, कर्मद-).। साऽस्यदेवतापर्ये प्र.। s) = साम-विशेष-।



-मस्य लुसू ३, ४: ५<sup>०</sup>; -मान्  
कौसू ८१, ३४; -मानाम् वौश्रौ  
१५, ३१: १९; -मानि छुसू  
३, ११: ६<sup>०</sup>; -मेन<sup>०</sup> शाश्रौ  
१६, १२, २१; काश्रौ २२, ६,  
१५; २५, १३, ३०; आपश्रौ २०,  
१७, ११; वौश्रौ.

यामी<sup>०</sup>- मी आपश्रौ  
९, २०, ४; वैश्रौ २०, ३९: ६;  
१०; साश्र १, ३४१; ३९५;  
-मी: आश्रौ ६, १०, १८;  
आपश्रौ १४, २२, १; वौश्रौ १४,  
२७: १२; वैश्रौ २१, ८: ४;  
हिश्रौ १५, ५, ३५; -मीनाम्  
शाश्रौ ८, ७, १७; १४, ५७, १२;  
-मीभिः आपश्रौ १४, २२, ५;  
हिश्रौ १२, ६, २६; -स्य: शाश्रौ  
८, ६, १३; -स्याम्<sup>०</sup> वैश्र १, १०:  
११; १४; गौपि १, २, १७.

श्यास्य<sup>०</sup>- स्ये  
आमिगृ २, ४, ११: ९; -स्येषु  
अप ५९, १, १५.

याम्या(मी-आ)दि<sup>०</sup>-  
-दि आपश्रौ ९, २०, ८.

याम-गाथा- थाभिः वैश्रौ  
१८, ३: १०<sup>१</sup>.

याम-त्रिच- चस्य गौपि १,  
२, ४०.

याम-सारस्वत<sup>०</sup>- तान्  
कौसू ८३, १६.

स्यास्य, स्या<sup>०</sup>- पावा ४, १,  
८५<sup>१</sup>; -स्य: आपश्रौ २२, ७,  
२२; हिश्रौ १७, ३, २१; अप  
५२, ११, ५; विध २०, ३९;

-स्यम् वैश्र ६, १९: १४; ७,  
३: ५; ४: १८; गौपि १, ५,  
१६; शंघ १०१; विध ४३, ३२;  
६४, ४५<sup>१</sup>; अश्र १, १४; -स्यस्य  
अशां ६, ५<sup>१</sup>; -स्या अशां १६,  
१<sup>६</sup>; -स्या: वौश्रौ २४, ३८:  
३; -स्यात् वैश्र ३, १६: १४;  
-स्यानि अश्र ६, २९; -स्याम्  
आश्रौ ४, १२, २<sup>१</sup>; अशां १७,  
४<sup>६</sup>; -स्यायाम् अप २५, १, ६<sup>०</sup>;  
५२, १०, २<sup>०</sup>; ५९, १, ५<sup>०</sup>; अशां  
१८, ६<sup>६</sup>; १९, ६<sup>६</sup>; -स्ये हिपि  
१७: ४; विध ७८, ३५<sup>१</sup>;  
-स्येन आमिगृ ३, ६, १: १९;  
वौपि १, ८: १७; हिपि ७: ९;  
-स्येभ्यः कौश्र ३, १०, ६;  
शांश्र २, १४, ७; -स्येषु अप  
२५, १, ६; -स्यौ वैश्र ३, १७:  
१३.

याम्या-कर्म-प्रयोग- गः  
अप ७०<sup>३</sup>, १३, २.

याम्या(स्या-आ)दि- दि  
वैश्र १, १५: ६.

याम्या(स्या-अ)न्त- न्तम्  
वैश्र १, १५: ६.

यम-क्<sup>१००</sup>- -कम् अप ७०<sup>३</sup>, ४, ३<sup>२</sup>.

यम-गाथा- था: माश्रौ ६, १,  
२, २६; वाश्रौ २, १, १, ५०;

-थाभिः आपश्रौ १६, ६, ४<sup>१</sup>;  
वौश्रौ २२, २: २६; हिश्रौ ११,  
१, ६९; हिपि १८: १२; -थाम्

पाश्र ३, १०, ९.

यम-गीत- तम् वाध १९, ४८;  
-तान् वाध १८, १३.

यम-जनन- -ने काश्रौ २५, ४, ३५.  
१यम-दूत- -०त पाश्र ३, १५, १९;  
-ता: अप ४३, ५, ६४<sup>१</sup>;  
-ताभ्याम् हिपि १८: ९; -तेभ्यः  
अप ४३, ५, ५६<sup>१</sup>.  
यम-देव(ता >)त<sup>०</sup>- -त: हिश्रौ  
१५, ४, २५; गोश्र ४, ७, २२;  
वौध २, १, ३१.

यम-देवता->त्य, त्या- -त्यम्  
भाश्रौ ९, १८, ५<sup>१</sup>; हिश्रौ १५,  
४, ३८<sup>१</sup>; अश्र १८, १; -स्या:  
अप १, ४, ८.

यम-दैवत्य<sup>०</sup>- -त्यम् आपश्रौ ९,  
१५, १८<sup>१</sup>.

यम-नामन्- -म या १२, १४.

यम-पद<sup>०</sup>- -दयो: भासू ३, ८.

यम-पुत्र- -त्र: वृदे २, ६१; -त्रा:  
अप ५५, १, ३; -त्राणाम् अप  
५५, ४, ३; -त्रान् अप ५५,  
४, १.

यम-पुर- -रे अप ९, ४, १.

यम-पुरुष- -षान् कप्र २, २, २;  
शंघ ११६: २०; -स्येभ्यः  
आश्र १, २, ५; आमिगृ १, ७,  
२: ६; काश्र ५४, १२; भाश्र.

यम-प्रभव<sup>०</sup>- -वौ गौध २८, ५२.

यम-भय- -यम् अप १९, १, ८;  
-ये अशां १७, ४.

यम-यज्ञ- -ज्ञम् हिपि १७: १.

यम-यमी- -स्यो: ऋश्र २, १०, १०;  
-स्यौ वृदे ६, १६३.

यम-राज- -०ज कौश्र ५, २, १३<sup>१</sup>;  
-जम् वौध २, ५, २५.

यमराज-ग- -गान् अप १, ३८,

a) =साम-विशेष-। b) =ऋच्-। c) =दक्षिण-दिश-। d) विप. (दक्षिणदिक्-स्थित-। पत्र-  
तोयद-। e) वस.। f) सपा. यामगाथाभिः <> यमगाथाभिः इति पाभे.। g) कस.। h) विप. (पशु-  
पधिन- सृक्त- दिश- प्रयु.)। i) तु. पाका.। j) =भरणी-नक्षत्र-। k) =शान्ति-विशेष-। l) =युगल-।  
m) स्वार्थे प्र.। n) परस्परं पाभे.। o) पूष. =आग्नेहित-। p) इस. पूष. =निवृत्ति- उप. =प्रवृत्ति-।

३१; अशां ८,३.  
 १यम-राजन्<sup>१</sup> - ज्ञानः शांश्रौ ४,२१,  
 ९; बौश्रौ १०, ५२ : १; माश्रौ  
 ६,२,४,१; वाश्रौ २, २, ३, २;  
 काश्रु २४,१२; -ज्ञः काश्रु ४५,  
 ६<sup>b</sup>; कौसू ६२,२१.  
 १यम-राज्य- -ज्यम् माश्रु २,१,८<sup>b</sup>;  
 -ज्ये आपश्रौ १,९, १२; बौश्रौ  
 ३,११ : १; भाश्रौ.  
 १यम-ल<sup>०</sup> - पाडभो २, ३, ९६<sup>d</sup>;  
 -लानि अप ६७,३,२.  
 यमल-जनन- -ने आमिश्र २,  
 ७,४ : ३; बौश्रु ४,११,१.  
 यम-वत्सा<sup>०</sup> -त्सायाम् कौसू २३,१७  
 यम-वरुण- -णौ गोश्रु ३, ६, १३.  
 यम-विषय<sup>१</sup> - -ये शंघ ३७५.  
 यम-व्रत- -तम् कौसू ८२,४२.  
 यम-स(भा>)म-><sup>०</sup>भीय- पा  
 ४,३,८८.  
 यम-सा(<स)द्वन<sup>१</sup> -नम् आश्रिष्ट  
 २, ५, १ : ३; जैश्रु २, ९ : ३;  
 -नात् अअ २, १२; -१ने  
 आमिश्र ३,८,२ : ४१;५८; बौषि.  
 यम सू<sup>१</sup> - -सूः अप्राय ५,५; -सूम्  
 कौश्रु ३,५,१०; शांश्रु ३, १०,४.  
 यम-सूक्त- -क्तम् आमिश्र २, ४,  
 ३ : १६; पाश्रु ३,१०,९.  
 यम-स्तोम- -मः शांश्रौ १५, ९,१;  
 -मम् शांश्रौ १५, ९,२.  
 यमा(म-अ)द्विरसू<sup>१</sup> - -रसा आपश्रौ  
 ६,२,१,१; -रसोः चाश्रु ४ : ६.  
 यमा(म-अ)तिराश्र<sup>१</sup> - -त्रः आपश्रौ

२३,७,४<sup>१</sup>; निश्रु १०; २ : ३७;  
 -त्रम् आश्रौ ११; ५, ४<sup>१</sup>;  
 काश्रौ २४,३,६.  
 यमा(म-अ)न्यतर- -रः हिश्रौ ४,  
 ३,१.  
 १यमा(म-अ)दि- -दीन् बौध ४,  
 ८,३.  
 यमा(म-अ)न्त<sup>०</sup> - -न्ताः, -न्तानि  
 माश्रौ ५,२,१०,४.  
 यमा(म-अ)लय- -यम् काध २८१:  
 १.  
 यमि(न>)नी<sup>१</sup> - -नीम् अश्रु ३,  
 २८.  
 यामिन्य<sup>१</sup> - -न्यम् अश्रु ३,२८.  
 यमे(म-इ)न्द्र-वरुण- -णान् अप ७०,  
 ९, ४.  
 यमे(म-इ)ष्ट<sup>१</sup> - -ष्टम् बौश्रौ १२,  
 ११ : १५<sup>१</sup>.  
 ३यम<sup>३</sup> - -मः ऋप्रा ६, ३२; अप्रा; -मम्  
 ऋप्रा १४, ३४; ५३; याशि २,  
 ९२; -मयोः अप ४७, १, १९;  
 -माः अप ४७, १, १०; २, ३;  
 ३, ६; शुप्रा; -मात् ऋप्रा ६, ३६;  
 -मान् अप ४७, १, ६; ऋप्रा ६,  
 २९; तैप्रा २१, १३; माशि ११,  
 २; याशि २, ९१; -मानाम् माशि  
 ६, ९; -मे शुप्रा ४, ११५; -मेन  
 ऋप्रा ६, ३३; -मैः शौच १, ९९;  
 -मौ अप ४७, १, १६; १७;  
 आशि ४, २, ४.  
 यम-दोष- -याः माशि ११, ४.  
 यम-स्थान-गत- -तम् शैशि २१६.

२यमा(म-अ)दि- -दयः याशि २,  
 यमा(म-अ)नुस्वार-नासिक्य- -न  
 ऋत २, २, २; -न्यानाम् शुप्रा  
 ७४.  
 यमा(म-अ)पत्ति- -त्तिः शुप्रा  
 १६४; -त्तिम् ऋप्रा ६, ३०.  
 यमो(म-उ)पदेश- -शः ऋप्रा १,५  
 ४यम<sup>३</sup> - -मः ऋप्रा १३, ४३; -  
 ऋप्रा १३, ४४; तैप्रा २२, १  
 २३, १३.  
 यम-क- , १यम-वृत्- प्रश्रु. २यम-  
 २यमदुत्<sup>०</sup> - -ताः बौश्रौप्र ३१ : ४.  
 यमन- ✓यच्छ द.  
 यम-नामन्- २यम- द.  
 यमनी- ✓यच्छ द.  
 यम-पद्- प्रश्रु. २यम- द.  
 २यमल-> यामलायन-पा.) पाग  
 २,८०.  
 यमष्टु<sup>०</sup> - (> यामष्टेय-पा.) पाग  
 १,१२३.  
 यमस्तम्म<sup>०</sup> - -म्माः बौश्रौप्र १७ : १  
 यमित्री- ✓यच्छ द.  
 यमुना<sup>१</sup> - पाड ३, ६१; -ना लाश्रौ १  
 १९, १०; शंघ ४५७ : ९; वा  
 २६; -नाम् शांश्रौ १३, २  
 २१; ३०; काश्रौ २४, ६, १०  
 ३६; आपश्रौ २२, १३, ६<sup>१</sup>; १  
 हिश्रौ; -नायाम् आश्रौ १२, ९  
 २८; -१ने आपमं २, १  
 १२<sup>१</sup>; भाश्रु १, २१ : ८<sup>१</sup>; २  
 ९, २६<sup>१</sup>; शैशि १३१.  
 यामुन<sup>१</sup> - -नेषु जैश्रु २, ९ : १

a) वैप १ द. । b) सप्ता. 'ज्ञः <> °ज्यम् इति पाभे. । c) = युग्म- । त्वाधिकः लृच् प्र. उत्सं. (पा ५,२,९७) । d) वैह. <✓यम् इति पाडभो., १यम-+ ✓ला इति शक. । e) वस. । f) उप. = देश- । g) उप. = सदन- । h) = ऋषि-द्वय- । i) = सन्न-विशेष- । j) पाभे. वैप २, ३३ं. तां २४,१२,२ टि. द. । k) सात्त्विकदेवतायः षयः प्र. उत्सं. (पा ४, १, ८५) । l) पाभे. वैप १, २५७७ q द. । m) = (अक्षराणाम्) शंज्ञा-विशेष- । n) = संगीतस्वर-विशेष- । o) व्यप. । p) सप्ता. 'नाम् अचनृथम् <> 'नायचनृथम् इति पाभे. । q) पाभे. घृ ९६८ ० द. । r) = देश-विशेष- । ऋण प्र. (पा ४,२,७०) ।

यमुना-तीर- -रे विध ८५, ९.  
 यमुना(ना-अ)वभृथ- -थम् हिश्रौ  
 १८, ४, ४०<sup>३</sup>.  
 यमुन्द-(>यामुन्दायनि-पा.)पाउभो  
 २, २, १७०; पाग ४, १, १५४<sup>३</sup>.  
 यम्य- ✓यच्छ द्र.  
 ययाति<sup>०</sup>- पाउभो २, १, १९७; -ति:  
 ऋअ २, ९, १०१; साअ १, ५४७;  
 अअ २०, १३७; -ते: चाअ  
 ४० : ३.  
 ययावर<sup>१</sup>- -रान् अप ५०, २, २.  
 ययी-, ययु- ✓या द्र.  
 य-र-ल-व-, य-र-वो(व-रऊ)प्मन्-,  
 य-रो(र-रऊ)प्मापत्ति- १य-द्र.  
 यर्हि २यद्- द्र.  
 य-ल-व-, य-लोप- प्रभृ. १य-व-  
 १य-द्र.  
 २यव<sup>०</sup>->यविमन्- पा ६, ४, १५६.  
 यवीयस्- पा ६, ४, १५६; -यस:  
 गौघ २८, ७; १६; -यसाम्  
 कौसू ८४, १४; वौघ १, २, ४६;  
 गौघ ६, ९; -यसे शंघ २६८;  
 -यांसम् वृदे ४, ११२; -यान्  
 गौघ १८, १९; -यान् ऽयान्  
 आम्रिगृ ३, ६, १ : २२; वौपि १,  
 ८ : १९.  
 यवीयसी- -सीम् आम्रिगृ  
 १, ६, १ : २; मागृ १, ७, ८;  
 वागृ १०, १; वाध २, २२; गौघ  
 ४, १.  
 यवीयः-प्रथम<sup>१</sup>- -मानि कौसू  
 ८२, १.  
 ३यव<sup>१</sup>- पाग ५, २, १००<sup>३</sup>; ११७; ४,

३; ८, २, ९; -फं०व आम्रिगृ ३,  
 ८, ३ : ३३; वौपि; -फं०व: शांश्रौ  
 १२, १७, १; काश्रौ; काश्रु ७,  
 २४९<sup>१</sup>; -वम् फंशांश्रौ १६, ४,  
 ४; १३, १७; आपश्रौ; -फं०वम्  
 ऽवम् निसू ६, ७ : ३८; ऋअ  
 २, ९, ५५; साअ २, ३२५;  
 -वस्य जैगृ १, २४ : ८; माशि  
 २, १०<sup>१</sup>; -वा: काश्रौ २१, ४,  
 २९; आपश्रौ ८, ५, ३५; १२,  
 ४, ५; काश्रौसं; काश्रु ७, २५<sup>१</sup>;  
 -०वा: वौघ ३, ६, ६-१०; विध  
 ४८, १९-२२; -वान् आश्रौ  
 ६, ९, १; शांश्रौ १४, ७, १; काश्रौ;  
 -वानाम् काश्रौ ४, ६, २; १५, ७,  
 ३१; आपश्रौ; हिश्रौ १७, १,  
 ४२<sup>१</sup>; -वेन अप्राय ५, ६; या  
 ३, २०<sup>१</sup>; -वेम्य: आपश्रौ ६,  
 ३१, १३<sup>१</sup>; वौश्रौ २८, ५ :  
 ८; माश्रौ; -वेपु आश्रौ २, ९,  
 ५; वौश्रौ १८, २० : ९××; -वै:  
 आपश्रौ ६, ३०, १८××; वौश्रौ.  
 यवानी- पावा ४, १, ४९.  
 १याव<sup>१</sup>- पाग ५, ४, २९; -व:  
 काश्रौ ५, १२, ३; -वम् काश्रौ  
 ४, ११, ८; शंघ १३६.  
 याव-क<sup>३</sup>- पा ५, ४, २९;  
 -क: वौघ ४, ५, २३<sup>३</sup>; -कम्  
 कागृ ६, ४; वाध २१, ६; शंघ  
 ४२२; ४४८<sup>३</sup>; वौघ; -केन  
 कागृ ४३, ६; वैगृ २, ३ : ५;  
 वाध ११, ७७.  
 यावक-भक्ष- -क्ष: जैगृ

२, ८ : २३; वौघ ३, ९, १७.  
 यव-क- पा ५, ४, ३.  
 यवक्य- पा ५, २, ३.  
 यव-कर्कन्धु-चूर्ण- -र्णानि काश्रौ  
 १९, २, २२.  
 यव-कर्कन्धु-दधि- -धिभि: कप्र १,  
 ३, १३.  
 यव-कलापि<sup>०</sup>- -पि: शांश्रौ १४,  
 ४०, ९.  
 यव-की<sup>०</sup>- > °की-तोप-रैभ्य-  
 -भ्या: अप ५२, ९, ३.  
 यव-खल- -ल: शांश्रौ १४, ४०, ७.  
 यव-गोधूम- -मानाम् आपश्रौ १९,  
 ६, ७; हिश्रौ २३, १, १६; अप  
 १२, १, ३.  
 यव-गोधूम-पयो-विकार- -रम्  
 विध ५१, ३५.  
 यव-चूर्ण- -र्णै: शांश्रौ ४, १५, २२;  
 कौगृ ५, ६, ५.  
 यव-धान्य-तिल- -लै: अप ३०,  
 ३, १.  
 यव-नीवार-वेणु-श्यामाक-वीहिजा-  
 ति-प्रियङ्गु- -ङ्गव: वैश्रौ ११, ११:  
 ७.  
 यव-पाल- पा ६, २, ७८.  
 यव-पिष्ट- -ष्टानि वौश्रौ ९, १७ :  
 २६; २८, १३ : ७; वौगृ ३, १०,  
 ४; -ष्टै: हिश्रौ १४, ४, १८.  
 यवपिष्ट-मधु-सर्पिस्- -र्पिभि:  
 शंघ १६.  
 यव-पुरी(प>)षा<sup>१</sup>- -पा वौश्रौ  
 १८, २१ : ५.  
 यव-प्रमुख<sup>१</sup>- -खान् शंघ ११६: १४.

a) पक्षे. पृ २०२४ p द्र. । b) व्यप. । c) वैप १ द्र. । d) = देश-विशेष- । e) पाप्र.  
 <युवन्- इति । f) वस. । g) वैप १, २५७८ p द्र. । विशेष: टि. द्र. । h) तु. पागम. । i) = परिमाण-  
 विशेष- । j) = [यवाकार-] अङ्गुलिपूर्व-प्रान्त- । k) °नीम् इति पाठ: ? यनि. शोध: ( तु. सपा. आपश्रौ २२,  
 ३, ४) । l) विकाराऽर्थे प्र. । m) वैतु. अभा. <यवक- इति । n) = [उपचारात्] कृच्छ्र-विशेष- । o) उप.  
 = तृणमुष्टि- ।  
 वैप ४-तृ-७२

यव-प्रवाद- -इम् निस् ६, ७ : ३९.

यव-प्रसून- -नानि वौष्ट १, १०, ८;

-नैः वौष्ट १, १०, ७.

यव-प्रासन- -नम् हिश्रौ ७, ७, ६.

यव-त्रहिस्- -हिः वौश्रौ १८, २१ : ७.

यव-बुस<sup>०</sup> -> यवबुसक- पा ४, ३, ४८.

यव-मणि- -णिम् कौस् १९, २७; अशां १९, ३.

यव-मत्- पा ५, २, ११७; ८, २, ९;

-मत् आपश्रौ १, १७, ५; वैश्रौ ४, २; हिश्रौ १, ५, १; -मन्तः

शाश्रौ १३, ३, ४; वौश्रौ ११, ३ : १९××; माश्रौ; -मान्

शुश्र १, १३५<sup>०</sup>.

यवमती- -तीः वौश्रौ ४, ४ :

७××; वाश्रौ; -तीभिः आपश्रौ

७, ९, ९; ११, ९, १२; १२, ५;

माश्रौ; -तीभ्यः वौश्रौ ४, १ : ६.

यव-मध्य, ध्या(वप्रा.)<sup>०</sup> - ध्यः<sup>०</sup> विध

४७, ३; ६; -ध्यम् वौष ३,

८, ३३<sup>०</sup>; -ध्या<sup>०</sup> ऋश्र १, ४,

६; ९, १०; २, १, १०५××;

शुश्र; -ध्याः कप्र २, ८, २<sup>०</sup>;

अश्र ५, १०<sup>०</sup>; -ध्याम् माशि ९,

५<sup>०</sup>; -ध्ये अश्र ९, १.

यवमध्यो(ध्या-उ)त्तर<sup>०</sup> -रः

ऋप्रा १८, १३.

यव-मय- पा ४, ३, १४९; -यः

काश्रौ १५, १, २४; आपश्रौ;

-यम् आपश्रौ २, ११, २; ५, ४,

१५<sup>०</sup>××; वौश्रौ; -यानि माश्रौ

८, १५, १५.

यव-मात्र- -त्रम् काश्रौ ३, ४, १;

आपश्रौ ३, १, २; वौश्रौ; -त्रात्

आपश्रौ ३, १, २; वौश्रौ.

यव-मुष्टि- -ष्टिम् गोष्ट ३, ७, ७.

यव-मेघ- -घेन वाधूश्रौ ४, १९ : ३२.

✓यवय>यवयु- -युः ऋप्रा ९, ४३<sup>०</sup>.

यव-वत् कप्र १, ३, ९.

यव-वेला- -लायाम् लाश्रौ ८, ३, ७.

यव-त्रीहि-तिला ( ल-आ ) दि-

-दीनाम् अश्र २१, २, २.

यव-त्रीहि-महात्रीहि-प्रियङ्गु-

-ङ्गूणाम् अश्र २३, ७, २.

यव-शालि- -लीन् आज्यो ३, ३.

यव-सक्तु- -भिः आपश्रौ १९, ७,

१; वाश्रौ ३, २, ७, ६३; वैश्रौ

१५, १६ : ६; हिश्रौ २३, १, २५.

यवसक्तु-मिश्र- -श्रम् आमिष्ट २,

६, ६ : ३१.

यव-ससक्त- -क्तम् विध १३, ४.

यव-सर्पप- -पौ आमिष्ट २, १, १ : ९.

यव-स्तम्ब- -म्बम् आपश्रौ ६, ३०,

१४.

यवा( व-अ )क्षत-तण्डुल- -लैः

आमिष्ट १, ७, १ : ८.

?य(व>)वा-गिरि- ऋत ४, ७, १०.

यवा(व-आ)प्रयण<sup>०</sup> -णस्य वौश्रौ

२८, १२ : १३; १४; -णेन वौश्रौ

१२, ३ : ४; १५, ९ : १८.

यवा(व-अ)प्रायण<sup>०</sup> -णे वाश्रौ १,

५, ५, ६.

यवा(व-आ)वार<sup>०</sup> -रौ अश्र ४०,

३, ५.

यवा(व-आ)चाम<sup>०</sup> -मेन वौष ४, ५, २५.

यवा(व-आ)चित्त<sup>०</sup> -तम् आश्रौ ९,

४, १८; काश्रौ १५, ८, २३;

आपश्रौ १८, २१, ७; वौश्रौ १२,

१८ : १७.

यवा(व-आ)दि- -दीनाम् अश्राय ६, ५.

यवादि-रहित- -तः कप्र १, ४, ३.

यवा(व-अ)न्तर- -रम् नाशि १,

६, ९.

यवा(व-अ)त्त- -त्तम् शंघ ४४८;

विध ९५, १२.

यवा(व-आ)शिर्<sup>०</sup> -शिरः हिश्रौ

१२, ६, ६<sup>०</sup>; -शिरम् आश्रौ ६,

२, ६××; शाश्रौ १५, २, १; छुस्

१, ७ : १३; २, १० : २४.

यविक-यविन्-यविल- पा ५, २,

११७.

यवो(व-उ)दक- -क्तम् वैष्ट ६, २ :

१४; -केन भाष्ट ३, १६ : ९.

यवो(व-ओ)दन- -नम्<sup>०</sup> वौषि १,

१७ : ३१; हिपि १२ : ४; -नस्य

वौषि १, १७ : ३१; हिपि १२ : ५.

यवोदन-प्राशन- -नात् हिपि

१९ : १३.

यवो(व-उ)दर<sup>०</sup> -राणि अश्र २६,

१, ३; -रैः अश्र २३, ५, ५.

यवो(व-उ)वै(र>)रा<sup>०</sup> -रा शाश्रौ

१४, ४०, ६; आपश्रौ २२, ३, ३;

लाश्रौ ८, ३, ४; हिश्रौ १७, १,

४१; -रायाम् काश्रौसं २७ :

१६<sup>०</sup>.

१यवौ(व-ओ)दन- -नम् आमिष्ट ३,

(a) घञ.। (b) = [उपचारात्] काल-विशेष-। (c) = ऋषि-विशेष-। (d) = चान्द्रायण-। (e) = छन्दो-

विशेष-। (f) विप. (इश-। (g) = विशुक्ति-विशेष-। (h) = [वसन्ते] नवाष्टि- (तृ. भाष्यम् [काश्रौ १, ८, ६; ४,

६, १; २])। (i) = आष्टि-विशेष-। नलो. कप्र.। (j) उप. = [उपचारात्] पेशद्वय-। (k) वैप १ द्र.। (l) सपा.

यवो<>यवौ इति पाठे.। (m) = प्रमाण-विशेष-। (n) विप.। रुम.। (o) गवो इति पाठः? यनि. शोबः।

७,२: ११<sup>६</sup>; -नस्य आग्निष्ट ३,  
७,२:१२.  
२यवौ(व-ओ)दन<sup>६</sup>- नौ अशां  
१२,३.  
१यव्य,व्या- पा ५, १, ७; २, ३;  
-व्यानि<sup>०</sup> आपश्चौ २०, १२, १;  
वौश्रौ १५,३७:११; -व्ये शुप्रा  
२,२०<sup>१</sup>।  
२य(व्य>)व्या- -व्यायै वौश्रौ १५,  
२६: १<sup>१</sup>।  
†४यव<sup>०</sup>- -वा: माश्रौ ६,२, ३, २;  
वाश्रौ २,२,२,८.  
३यव्य<sup>६</sup>- -व्य: कप्र २,६,८.  
यवक-, \*क्य-, \*क्री- ३यव- द्र.  
यवखद->( >दिक- पा.) पाग ५,२,  
११६.  
य-वचन- १य- द्र.  
१यवन<sup>६</sup>- पाठ २,७४; पावा, पावाग  
४, १, १७३; -ना: अप ५७,  
२, ५; -नेषु अप ५१,१,३.  
यवनानी<sup>१</sup>- पावा ४,१,४९.  
यवन-कान्बोज- -जान् अप ५०,  
२,४.  
यवन-मुण्ड- पाग २,१,७२.  
यवन-वल्लय-कान्ती-सिंहल-लङ्का-  
पुरी<sup>१</sup>- -री अप ५६,१,५.  
२यवन- √यु द्र.  
य-व-न-ह-पर- १य- द्र.  
?यवने<sup>६</sup> अप ४६,३,६१.  
√यवय प्रभृ. ३यव- द्र.  
यवया<sup>१</sup>- > यवया-वन्<sup>०</sup>- -वान:  
अप्रा ३,१,७<sup>१</sup>.

य-व-ल- १य- द्र.  
यवपि->( >पिन्-) यवाप- टि. द्र.  
यवस्- √यु (वधा.) द्र.  
यवस<sup>०</sup>- पाठभो २, ३, १७३; -सम्  
आश्रौ ३,११,४; आपश्चौ ८, १,  
४<sup>१</sup>; २०,७, ८; हिश्रौ १४, २,  
२१; आग २,४,८; -†से वौश्रौ  
१०, ४६: ४८; माश्रौ ६, २,  
३, १७; वैश्रौ; -†सेन आपश्चौ  
१२, १४, १२; हिश्रौ ८, ४,  
१४.  
यवस-भार- -रम् शंघ ४०१.  
यवस-मुष्टि- -ष्टिम् शाश्रौ ३,२०,  
१.  
यवसो(स-उ)दक- -के काश्रौ २६,  
६,२४; पाग ३, १४, १५; विध  
६३,१८.  
यवागू<sup>०</sup>- पाठ ३,८१; -!गु: वाश्रौ  
१,५,३,३,४; -गू: आश्रौ २,  
३, २; शाश्रौ २, ७, ९; काश्रौ;  
-गूम् आश्रौ ३, १०, ३०;  
आपश्चौ ६, १५, २; ९, १, २३××;  
काश्रौसं; -ग्वा आश्रौ २,४,२;  
शाश्रौ ३,१२, १५; ४,५, ११;  
काश्रौ; -ग्वा: माश्रौ १, १, ३,  
३५.  
यवागू-नियम- -म: मीत् ११, १,  
५०.  
?यवाचष्टि<sup>६</sup> लाश्रौ ४,२,९.  
यवानी- ३यव- द्र.  
यवाप- (>पिक-, पिन्- पा.)  
पाग ४,२,८०<sup>३</sup>।

यवास- पाग ४,२,८०<sup>३</sup>; ३,१३९; ५,  
२,१३५<sup>०</sup>.  
यावास- पा ४,३,१३९.  
१यवासिन्- पा ४,२,८०.  
२यवासि(न् >)नी- पा ५, २,  
१३५.  
यविक-, यविन्- ३यव- द्र.  
यविमन्- २यव- द्र.  
यविल- ३यव- द्र.  
यविष्ट<sup>०</sup>- पा ५,३,६४; ६,४, १५६;  
-†ं०ष्ठ आश्रौ १,६,२; ७,८,१;  
काश्रौ; वैश्रौ १,६: ८<sup>१</sup>; आपमं  
२,११,२८<sup>१</sup>; -†ष्ठ: शाश्रौ १२,  
१९,४; १८, २२, ६; वाश्रौ १,  
३,७, २०; -†ष्टम् आपश्चौ १६,  
३५, ५; वाश्रौ २, १, ८, १६;  
हिश्रौ ११,८,२३; -ष्टस्य चात्र  
१६: २७<sup>१</sup>; -ष्टाय वौश्रौ १३,  
५: ३; ५; अप्राय ६, ६<sup>१</sup>; -ष्टे  
वृदे ७,६१.  
†यविष्टय<sup>०</sup>- पावा ५, ४, ३६<sup>१</sup>;  
-०ष्ठय आपश्चौ ५, ६, ३;  
वौश्रौ २,१४: १६; हिश्रौ ३,  
२,५४; ऋप्रा ७,३०; शुप्रा ४,  
१५६<sup>२</sup>; माशि ८३; -ष्टय: वौग  
३,५,१२-१४.  
यवीयस्- २यव- द्र.  
यवीयुष्- √युष् द्र.  
?यवैलायाम् काश्रौसं २८: २.  
?यवोहिषु नाशि २,४,६.  
†४य(व्य>)व्या<sup>०</sup>- -व्या वौश्रौ ५,  
८: २; -व्या: निघ १,१३.

a) पांमे. पृ २०२६ f द्र. । b) द्रस. । c) =होम-विशेष- । विकाराऽर्थे यत् प्र. । d) पांमे. वैप  
१, २५७९ f द्र. । e) वैप १ द्र. । f) पांमे. वैप १, २५७९ h द्र. । g) स्वार्थे यत् प्र. । h) नाप.  
(जनपद-, तद्राजन्- ) । i) =लिपि- । j) द्रस. > मलो. कस. । k) पाठः ? सपा. ऋ २,१०८, ५ पवते इति  
पांमे. । l) पाठः ? गूः इति शोधः । m) पाठः ? । यच्च चेष्टितम् इति शोधः ( तु. द्राश्रौ ११, २, १० ) ।  
n) सकृत् ष- इति पांसि. पागम. । अन्यत्र यवपि- इति पांसि. । o) पय- इति दुर्गः ( तु. पागम. ) । p) पांमे.  
वैप १, २५८१ e द्र. । q) पांमे. वैप १, २५८० p द्र. । r) व्यप. ? । षस्य इति पाठः ? यनि. शोधः ।

√ यञ् (वधा.)<sup>a</sup> > यदा<sup>b</sup> - यान् वाण  
१५, ४<sup>c</sup>.

यदास्<sup>d</sup> - पाठ ४, १९१; पावाण ५,  
१, १११; -दाः आध्रौ ६, १२,  
२१<sup>e</sup>; ९, ३, १०; शाध्रौ; पाण  
२, ६, २०<sup>f</sup>; नाण १, ९,  
२७<sup>g</sup>; १३, ७<sup>h</sup>; ८<sup>i</sup>; वाण  
१२, ३<sup>j</sup>; कौस् १३, ४<sup>k</sup>;  
अप ४८, ७५<sup>l</sup>; -दासः  
वाध्रौ ४, ९४<sup>m</sup>; ७; द्राध्रौ  
९, ३, १०; ताध्रौ; -दासा  
आध्रौ ९, ३, १०; शाध्रौ १६,  
२९, ७; आपध्रौ; वौध्रौ १०,  
४६; ११<sup>n</sup>; -दासि वौध्रौ  
१०, ४५; ३१<sup>o</sup>; वैध्रौ; -दासि  
आध्रौ १, ३, २३; २, ९, ९××;  
शाध्रौ; नाध्रौ १, १, ३, ७<sup>p</sup>;  
-दासि वा ५, २५.

यदाः-प्रती(क)का<sup>q</sup> - का  
वा १०, २१.

यदास्-न्त- राय आमिण् २, ४,  
३; ११.

यदास्-काम- नः आध्रौ ९, ८,  
५; ७; नाध्रौ; -नस्य आपध्रौ  
६, १५, १; भाध्रौ ६, १४, १४;  
आमिण् २, ४, ११; २; -माः  
वौध्रौ ३, १४; ९.

यदास्-कामिन्- मी आमिण्  
२, ४, ११; २४.

यदास्-हृत्- हृत्तम् वौध्रौ ३,  
८; ११<sup>r</sup>.

यदास्त्व, त्या- पावा ५, १, १११;  
-स्यः आण् ४, ८, ३५; पाण् ३,  
८, २; -स्यन् माण् १, १८, २;  
द्राण् ४, २, १३; अप २०, ७, २;  
वौष ३, ८, ३८; विष १००, २;  
शुभा ८, ३२; -स्ये वौध्रौ ६,  
२४; ३५<sup>s</sup>.

यदास्त्व-वर्चस्य- स्यानि  
अप १८, १, १४.

यदास्-न्व- वन्तः वौध्रौ ३,  
८; १०<sup>t</sup>.

दास्यत्वती- मी आध्रौ  
४, १२, २<sup>u</sup>; आपध्रौ १२, १४,  
१३; वौध्रौ; अप ४८, ७४<sup>v</sup>.

यदास्-विन्- दांवि आपमं २,  
२, ११; वाण् २, १, २९; पाण्;  
-दांविन् आपध्रौ १७, १०, २;  
वौध्रौ; -विनः अप २०, ५, ३; वासि  
१, ३७; नासि २, ८, ४; -दांविन्  
आपध्रौ ६, २१, १; वाध्रौ;  
आण् २, ६, १९; अप २०, ५, ३९;  
-दांविना माण् १, २०; ८; हिण्  
१, २४, ३; -दांवी काध्रौ ३, ३,  
५; आपध्रौ ६, १४, ६××; वौध्रौ.

यदास्विनी- नानि माण्  
२, १४, ३०<sup>w</sup>; -नी माण् २,  
१३, ६<sup>x</sup>; -नीः कौस् १३५, ९<sup>y</sup>;  
-नीन् माण् २, १३, ६<sup>z</sup>; कप्र  
३, १, १०; हरे ४, ५७; ५, ५४.

यदास्वि-नम- नः वाध्रौ  
४, १४<sup>aa</sup>; ४; ५; ७.

दास्य-सङ्- सत् आपध्रौ  
१६, २९, २; वैध्रौ १८, २०; २८;  
हिध्रौ १३, ८, ४.

यदा-हन् > मी- मी पाण् १,  
११, २; ४; वैण् ५, ९; ३; वैण्  
१, २२; २२.

यदा-हन्(मी-त्र)न्त- न्तम्  
वैण् ३, ४; ४.

दास्य-दा- -दाः आपध्रौ १७,  
५, ९; वौध्रौ; -दान् आपध्रौ  
१७, ५, ९; वौध्रौ.

यदा-धा- -धान् नाध्रौ ५, २,  
८, २०<sup>bb</sup>.

यदा-ना- > नीन, ना- पा  
४, ४, १३२; -दां हिध्रौ २, ५,  
४३; ६, ४, २.

यदा-मग- पा ४, ४, १३१.

यदा-वित्त-हर- नात् विष ५,  
१९२.

दास्य- -दासः आपध्रौ १, ११,  
१०; वौध्रौ १, ३; १६; भाध्रौ;  
-दासम् आध्रौ ३, ८, १; ४, १३,  
७; काध्रौ ५, १२, १०; आनध्रौ;  
-दासा आध्रौ ४, ४, ४; -दाः  
आध्रौ ७, ४, ३; शाध्रौ १२, ९,  
११; अत्र ६, ५८.

दास्य-पाः आमिण् १, ३, ४;  
१६<sup>cc</sup>.

यदास्-वम- नः वाध्रौ ४,  
९४<sup>dd</sup>; ४; ५; ७.

यष्ट्य- √यष्ट् द.

a) वैष १ द. । b) = १ यदा- । c) लघा. नाण् १, १३, ८ वलं यदाः इति पामे. । d) पामे.  
वैष १, २५८२ h द. । e) यदाधा इति पाठः ? पामे. च धास्ये (तुनधीयन्) इति च द्विपदः शोधः । f) मत्ता.  
मी २, १३, ३; १९. २४, ६ प १५, ६, ३ विमे. । g) पामे. वैष १, २५८२ g द. । h) = उदक- । i) पामे.  
वैष १, २५८२ k द. । j) पामे. वैष २, ३३. यदासः तैत्रा ३, ७, ४, १४ टि. द. । k) वत्त. । l) पामे. वैष १,  
२५८३ d द. । m) पामे. वैष २, ३३. यदास्ये तैत्रा १, ८, २ टि. द. । n) पामे. वैष १, २५८३ g द. ।  
o) पामे. वैष १, २५८३ h द. । p) = राशि- । q) = नन्त्र-विमे- । रस. । r) पाठः ? श्वमः इति शोधः  
(श. मी ६, ५८, ३; मूले. 'मः इति) । मत्ता. वौष्ट १, १३, ४३ श्वमः इति पामे. ? ।

यष्टि, ष्टी<sup>a</sup> - पाउभोर, १, १८६; पा, पाग ४, १, ४५; -ष्टयः वौध २, १०, १२; ३२; -ष्टिः वाध १२, १४; -ष्टिभिः कौसू ३९, १५; -ष्टिम् वागृ ९, १४; वौध ३, १, ८; विध ७१, १३; -ष्टया कौसू ४७, २४. याष्टीक- पा ४, ४, ५९.

यष्टि-ग्रह- पावा ३, २, ९.

यष्टुम्, यष्टृ- ✓यजू द्र.

✓यस्<sup>b</sup> पाधा. दिवा. पर. प्रयत्ने, ऋयस्य<sup>c</sup> शांगृ १, १९, ६; हिगृ १, २५, १.

यस्क<sup>d</sup>- पाग २, ४, ६३; ४, १, ११२; -स्काः<sup>e</sup> वौश्रौप्र ६: १; ५.

यास्क- पा ४, १, ११२; -स्कः वौश्रौ १६, २७: २२; वृदे २, १११; १३७××; साध; -स्कस्य पि ३, ३०; -स्कानाम् वैध ४, २, ४१; -स्काय वाधूश्रौ ३, १: १०; या १४, ३६.

यास्क-कात्यक्य- -क्यौ वृदे ३, १००.

यास्क-नागर्ग्य-रथीतर- -रा: वृदे १, २६.

यास्क-प्रभृति- -तयः साश्र १, ५८१.

यास्क-भागुरि- -री वृदे ६, १०७.

यास्क-वाधूल-मौन-मौक-

-का: आपश्रौ २४, ६, १.

यास्क-वाधूल-मौन-मौक-जात-

वाह<sup>f</sup>- -हा: हिश्रौ २१, ३, ७१.

यास्क-शाण्डिल्य- -ल्यौ वृदे २, १३२.

यास्कौ(स्क-श्रौ)पमन्यव-

-वौ वृदे ७, ६९.

यस्क-वाधूल-मौन-मौक-शार्कराक्षि-

साष्टि-सावर्णि-शालङ्कायन-जैमि-

नि-दैवन्त्यायन- -नानाम् आश्रौ

१२, १०, १०.

यस्त्वृत्वो तत्रागेवसः<sup>h</sup> मैत्र ३२.

यस्मान्मिनोति<sup>i</sup> अप्राय ५, ६१.

✓यह्(वधा.)>यह->यहु<sup>l</sup>- -हुः

निघ २, २१; -हुम् या ८, ३;

-०हो वृदे ३, ६४१.

यह<sup>m</sup>- पाउ १, १५४; -०ह्

या ८, ८१; -हः आपश्रौ १३,

१६, ८; वाधूश्रौ; अप ४८, ६८<sup>k</sup>;

निघ ३, ३<sup>k</sup>; -हम् आश्रौ ४, १३,

७; शाश्रौ ६, ४, ७××; ऋश्र;

-हस्य आपश्रौ १२, ७, १०<sup>l</sup>; १३<sup>l</sup>;

१३, १६, ८; हिश्रौ ८, २, ९<sup>l</sup>; १०,

५, १३; -हः आपश्रौ १७, १८, १.

यह्नी<sup>d</sup>- -हयः अप ४८, ७६१.

यह<sup>n</sup>- -हः निघ १, १२<sup>m</sup>; २, ९<sup>m</sup>.

✓या(वधा.) पाधा. अदा. पर. प्रापणे,

याति आपश्रौ ९, १०, १७१;

१६, ३५, ५१; २३, ११, १२;

वौश्रौ; यातः विध ५४, ७;

यान्ति आपश्रौ १०, २४, २;

२३, १२, १७××; वौश्रौ;

यासि आश्रौ २, १३, ७१;

आपश्रौ; या ८, ३; ऋयामि<sup>o</sup>

आश्रौ २, १७, १५<sup>p</sup>; ३, ७,

१५; ५, १६, २; ७, ४, ३; शाश्रौ;

आपश्रौ ३, ११, २<sup>p</sup>; ९, १२, ४<sup>p</sup>;

यामः या २, २६<sup>q</sup>; ऋयात् माश्रौ

२, ३, ६, ४; वैगृ ५, ३: २३;

ऋयान्तु वौगृ २, ११: ४२; गौपि

२, ४, १९; ऋयाहि आश्रौ ३, ७,

१०; वैश्रौ; ऋयात् अत्राय ६,

९; अश्र २०, १४१; शैशि १२५;

ऋयात्, >ता गौपि २, ५, १४;

अप ४४, ४, १२; तैप्रा ३, १०;

यातन या ४, ७; अयात् सु २४,

३; ऋयात् आश्रौ ९, ५, २;

शाश्रौ; यायात् वाधूश्रौ ४, ९४<sup>r</sup>;

७; वाश्रौ १, ७, ४, ६५; आपगृ.

ययौ अप्राय २, ३१; ययुः आमिगृ

३, ५, ४: १८<sup>s</sup>; वौपि १, ३:

२७<sup>s</sup>; कप्र ३, २, १३; ययाथ

कौसू ८१, ३९<sup>t</sup>; यास्यति कप्र

३, ३, ६; वैध १, ६, १; यासिष्ट

वौश्रौ १८, २६: ८.

ययी<sup>v</sup>- पाउ ३, १५९; -ऋय्यम्

काश्रौ १२, ३, १४; आपश्रौ; वाश्रौ

३, २, २, २८<sup>u</sup>; हिश्रौ १६, ३,

a) नाप. (दण्ड-). व्यु. ? <✓यजू इति प्रायोवादः, <✓यम् इति P.W. प्रसू., <✓यक्ष इति

[पक्षे] अभा. । b) पा ३, १, ७१ परामृष्टः द्र. । c) लोटि मपु १। पाभे. पृ २००८ a द्र. । d) वैप

१ द्र. । e) बहु. <यास्क- । f) याक्तरस्का<sup>o</sup> इति पाठः? यनि. शोधः । g) 'मौकरजा<sup>o</sup> इति

पाठः? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ २४, ६, १) । h) पाठः? यस्त्वृत्वो तत्रागेव स्यात् (यत् तु ऋत्वा उ

तत्र ऋग् एव स्यात्) इत्याकारकः पाद-शोधः । i) पाठः? प्रस्मा मिनोति इति निपदः शोधः (तु.

ऋ ५, ७, ४ आपश्रौ १४, २९, ३ प्रसू.) । j) नाप. (अपत्य- [निघ.]) । शेषं वैप १, २५८४ j द्र. ।

k) = महत्- । l) पाभे. वैप १, १३७४ o द्र. । m) = जल- । n) = १वल- । o) धा.

याच्चायां वृत्तिः । p) पाभे. वैप १, २५८५ i द्र. । q) पाभे. वैप १, ७५१ f द्र. । r) 'थ्यम् इति

पाठः? यनि. शोधः ।

३६९.

ययु<sup>०</sup>- पाठ १, २१; -युः वौश्रौ  
१५, ७: १४; आपसं २, २१, २८.

यात्- यातः वौश्रौ १८, ४१ : ११;

याताम् आग्रिगृ २, ५, १०: ३११०;  
वृदे ८, ८७; यान्तः लाश्रौ १०,  
५, १०; यान्तम् वौश्रौ ६, ९: ६;  
२१, १०: २१; विध ७१, १८;  
ऋञ्ज २, १०, ४०१.

यात्- पाग ४, ४, १९<sup>०</sup>; -तः सु १८,  
६; विध ७२, ६; या ८, ८; -ताः  
अप ३१, ३, ५; -ते विध १,  
१९; -तौ वृदे ७, १३१.

यात्-याम<sup>०</sup>- मम् शुञ्ज १, ५;  
-मैः कौश्र ३, ११, ४०; शांश्रु  
४, ११, ९.

यात्-याम-न्ता- -तायै गोगृ  
१, ८, १२.

यात्-याम-स्व- > त्व-का-  
रिन्- -रि कप्र ३, ८, १६.

यात्-यामन्<sup>०</sup>- -मानि ऋञ्ज १,  
१, १; -ज्ञा वौश्रौ २९, १०: १२.

याता( त-अ)नुयात- पावाग २,  
१, ६०.

यातिक- पा ४, ४, १९.

यातो(त-उ)पयात्- (> पतिक-  
पा. ) पाग ४, ४, १९.

यात्वे मात् २, ७, ५१.

यात्वे वाधुश्रौ ४, ९०: ७.

१यान्- -न्ता आश्रौ ६, ३, ११०;  
-तारम् अप ४८, ११६१.

यात्रा- पाठ ४, १६८; -त्रा आञ्जो  
६, ६; -त्राम् अप ६८, ३, ५; विध  
३, ४०; आञ्जो १०, ३.

यात्रा(त्रा-अ)थं- -थम् कौश्र

६७, १५.

यात्रा-विधान- -न्म् आञ्जो  
७, ७.

यात्रिक- -कम् शंघ ३९०.

यात्रो(त्रा-उ)घान- -ने अप  
२४, १, ३.

यात्वा काश्रौ ७, ९, १५××; आपश्रौ.

१यान<sup>०</sup>- पाग २, ४, ३१; -न्म्  
वौश्रौ ९, १९, ४१; आगृ १, ८,  
१; पागृ; -न्त्य अप ६८, २,  
१४; आपध २, ११, ७; हिध २,  
४, २३; या १२, १२; -नात्  
आपध २, ९, २; हिध २, १,  
११७; -यान्त् या ८, ६; अप्रा  
२, ४, १७; -नानि शांश्रौ १५,  
३, १४; हिश्रौ १३, १, ३१;  
लाश्रौ ८, ४, १३; अप;  
-नाय वौश्र ४, ४, १०; -नेन  
लाश्रौ ८, ५, ६; वौश्र; -नेषु  
आपश्रौ ६, २८, २; हिश्रौ ३, ८,  
३; गौध १३, २२; -नैः वौध  
१, ५, ८४.

१यानी<sup>०</sup>- -यानी आपश्रौ १६,  
२४, ८××; वौश्रौ.

यान-वत्- -वन्तम् आपध २,  
९, २; हिध २, १, ११७.

यान-विपर्यास- -से पागृ १,  
१०, १; गोगृ २, ४, ३.

यान-त्य- -त्यः गौध १६, १७.

याना(न-अ)नुरूपण- -णे अप  
७१, १, ३.

याना(न-आ)सन- -ने विध  
६५, १४.

यानासना(न-अ)शन- -नान्  
वाध १, २२६; वौध २, १, ६२.

याप(न>)ता- -नायाम् पा ५, ४,  
६०.

याप्य- -प्यः गौध १३, २३;  
-प्याः सुधप ८५: ४; -प्ये  
पा ५, ३, ४७; -प्येन वौध ३,  
१०, २; गौध १९, २.

३याम<sup>०</sup>- पाठ १, १४०; -मम् कप्र  
२, ६, २; -मान् कप्र २, ६, १०;  
-मै वैश्रौ १७, ४: ४; नाश्रौ ४, ८,  
१; अप ६८, २, ५८; -मेषु वैश्रौ  
१७, ४: २; या ४, १५१.

यामन्- -मन् वाश्रौ १, ३, ३, १;  
हिश्रौ १, ७, ४०; -मन् ऽमन्  
अञ्ज ४, २९; -मनि आश्रौ  
५, ७, ३; शांश्रौ ७, ६, ३; ऋषा  
७, ३४.

याय(त् >)न्ती- -न्तीनाम् शाश्रौ  
१६, २२, २१.

यायावर<sup>०</sup>- पा ३, २, १७६; -रः  
आपश्रौ ५, ३, २२; १६, १३, ४;  
भाश्रौ; -रत्त्व आपश्रौ ११, १७,  
१; -राः वौश्रौ २४, ३१: २;  
हिधि २१: ४; -रागाम् अप  
२३, ७, ५; शंघ १५८.

यायावर-त्व- -त्वम् वौध ३,  
१, ३.

यायावर-धर्म- -र्मण वौश्रौ २४,  
३१: १; ३; हिधि २१: ५.

यायावर-वनत्य- -त्येभ्यः वौध  
४, ५, २७.

यायिन्- -यिनः अप ५१, २, १;  
६३, ४, ३; -यिनम् अप ५१,  
२, २१; -यिनाम् अप ६३, ४,  
१०; -यो अप ५१, २, २१.

यायि-स्त्व- -स्त्वाः अप ५१, ५, २.

a) 'पम् इति पाठः? यनि. शोषः । b) वैप १ द्र. । c) पाभि. वैप १, १०९३ [ इ. । d) दु.  
[प्रे] पागम. । e) भा. दित्वाया इति. । f) विन. > नाप. । g) 'नाहानान् इति कैनि. पाठः? यनि. शोषः  
(दु. वौध., मनु ११, १८०) ।



यियासु-सूत्र कप्र १,१०,९.  
 १यु<sup>१</sup>- योः शाश्रौ १४,५२,५५.  
 याकुलोम,मन- यकृत्- द्र.  
 याग- प्रमृ. ✓यज् द्र.  
 ✓याच्<sup>२</sup>पाधा. भ्वा. उभ. याच्ञायाम्,  
 याचते वौश्रौ २, २ : १४; १० :  
 ३८; ३, ११ : १६; वाधुश्रौ;  
 याचति आपश्रौ १०, ३, १; वौश्रौ;  
 याचतः वौश्रौ ५, ९ : ११;  
 याचन्ति या ८, २; याचामि कौसू  
 ४६, ६५; या ७, १५; अयाचत  
 ऋअ २, ४, १५; अयाचताम्  
 वृदे ३, २०; अयाचन्त वौश्रौ  
 २, ७ : ३५; अयाचन् अत्र १२,  
 ४५; याचेत आपश्रौ ६, १९, ३५;  
 अप २, ६, २; वाध; याचेत्  
 काश्रौ २२, १, ३१; आपश्रौ;  
 याचेरन् पागृ ३, १०, १३.  
 याचिष्यते या ६, २४; याचिषत्  
 या ६, २४५; याचिषामहे<sup>३</sup> पावा  
 ६, १, ८; ऋयाचिष्म गौपि २, ५,  
 १२; विध ७३, ३०.  
 याच्यते वृदे १, ८.  
 याचयति आमिगृ १, ६, १ : ६;  
 याचयेयुः वैश्रौ १२, ३ : १०.  
 याचक- कम् माशि १५, १; -कान्  
 माश्रौ २, १, ३, १३.  
 याचत्- चतः वौध २, २, ८०; -चन्  
 आपध १, १९, १५; या ६, २४५.  
 याचमान- नः कप्र १, ६, १५; -नाः  
 या ४, ३; -नाय हिश्रौ १०, ४, ६५.  
 याचित- तः आश्रौ २, १०, १६५;  
 आपश्रौ १३, ७, ३; कौगृ; -तम्  
 वागृ ९, २०; -त्ते जैश्रौका १४.

याचित-क- पा ४, ४, २१.  
 ऋयाचित्- -तारः विध ७३, ३०;  
 -तारम् गौपि २, ५, १२.  
 याचितार-दातृ<sup>४</sup>- -तारौ अप  
 १०, १, ३.  
 याचित्वा वौश्रौ २, ६ : ५; भाश्रौ.  
 याचिष्यत्- -ष्यन् कौसू ४६, ६.  
 याच्च, च्वा- पा ३, ३, ९०; -च्चः<sup>५</sup>  
 या ३, १९; -च्वा वृदे १, ३५;  
 ४९; भाशि ५९.  
 याच्ञा-कर्मन्- -र्माणः निघ ३,  
 १९; या ३, १९.  
 याच्ञा-क्रयण- -णम् मीसू ६, ८,  
 २८.  
 याच्ञा( च्वा-अन्त > )न्ता<sup>६</sup>-  
 -ताम् वौध १, २, १७.  
 याच्य- पा ७, ३, ६६.  
 याजक- प्रमृ. ✓यज् द्र.  
 ?याज्ञानी वाश्रौ ३, २, ४, १०.  
 याज्ञिक- प्रमृ. ✓यज् द्र.  
 यात्-, यात- प्रमृ. ✓या(वधा.) द्र.  
 यातऊतीय- यद्- द्र.  
 यातना- प्रमृ. ✓यत् द्र.  
 ?यातवातहसहभविष्यति आमिगृ  
 ३, १०, ४ : २०.  
 यातवे, °तवे, °तिक- ✓या(वधा.) द्र.  
 यातु<sup>७</sup>- पाठ १, ७३; -तू कौसू १०६,  
 ७५; -तूनाम् या ६, ३०५.  
 यात(व्य >)व्या- पा ४, ४, १२१.  
 यातु-धान<sup>८</sup>- -नः या ७, ३५; -नम्  
 अत्र १, ८; -नाः आपश्रौ २, २,  
 २५; वाश्रौ; हिश्रौ ६, २, १५;  
 आमिगृ २, ६, ७ : ११; वौध  
 २, ८, १५; -नान् विध ८१, ४;

शुप्रा ३, १५०५; -नानाम् आपमं  
 २, १७, ७५५; विध ७३, ११.  
 यातुधानी<sup>९</sup>- -नीः अत्र १,  
 २८; -न्यः अप्राय २, ५५;  
 -न्याः अप ३७, ५, ५५.  
 यातुधान-प्रबोधित- -तः काश्रौ  
 २५, ११, ३३५.  
 ?यातु-मावत्<sup>१०</sup>- -वत् शौच ४, ८५.  
 ऋयातु-हन्- -हन्म् आपश्रौ १६,  
 ३०, १; वैश्रौ.  
 श्यातु- ✓या(वधा.) द्र.  
 र्यातु<sup>११</sup>- पाठ २, ९७; पाग ४, १, १०;  
 ५, १, १३०.  
 यात्र- पा ५, १, १३०.  
 यात्रा-, °त्रिक-, यात्वा ✓या(वधा.)  
 द्र.  
 याथाकथाच-, °कामी-, °काम्य-,  
 १, २याथातथ्य- यद्- द्र.  
 यादस्<sup>१२</sup>- पाठमो २, १, ३३८; -दः अप  
 ४८, ७५५५; -दसाम् अप ६७,  
 २, ४.  
 या(य-आ)दि- १य- द्र.  
 यादु<sup>१३</sup>- -दुः निघ १, १२५.  
 यादच्छिक- °दृश्- प्रमृ. यद्- द्र.  
 श्यान-, श्यानी- ✓या(वधा.) द्र.  
 र्यान-( > श्यानी-) रपान- टि. द्र.  
 यापना- ष्य- ✓या(वधा.) द्र.  
 श्याम- ✓यच्छ द्र.  
 र्याम- रयम- द्र.  
 श्याम- ✓या(वधा.) द्र.  
 धयाम<sup>१४</sup>- पाग ४, १, ९९.  
 यामायन- पा ४, १, ९९; -नः ऋअ  
 २, १०, १३५; १४४; -नाः  
 ऋअ २, १०, १४.

a) वैप १ द्र. । b) पावा १, ४, ५१ परामृष्टः द्र. । c) यियाचिषामहे इति पाम. । d) द्रस. पूष.  
 भारह् उंसं. ( पा ६, ३, ३२ ) । e) विप. (यज्ञ-) । अधिकरणे नङ् प्र. । f) वस. । g) सपा. काठ १६, १५  
 यातुधानाः इति पाभे. । h) धयातु- ( तु. वैप १ ) द्र. । i) = जलन-, जलजन्तु- । j) परस्परं पाभे. ।  
 k) = उदक- । < ✓या [प्राण्ये] इति दे., ✓याद् इति MW. । l) = ऋपि-विशेष- ।

यामन्- ✓या (वधा.) द्र.  
यामलायन- रयमल- द्र.  
यामष्टेय- यमष्टु- द्र.  
यामिन्य-, ष्मी- रयम- द्र.  
यामुन- यमुना- द्र.  
यामुन्दायनि- यमुन्द- द्र.  
१,२याम्य- रयम- द्र.  
यायजूक- ✓यञ् द्र.  
यायन्ती-, ष्यावर-, ष्यिन्- ✓या  
(वधा.) द्र.  
१याव- प्रयु. ३यव- द्र.  
२याव<sup>a</sup>- -वा<sup>b</sup> आपश्चौ १७, ५, १५;  
वौश्रौ १०, ४५ : ४०; हिश्रौ १२,  
२, १२; -वानाम् वौश्रौ १०,  
४२ : १५९.  
याव-क- ३यव- द्र.  
यावत्- प्रयु. यद्- द्र.  
१यावतीशासीपाविद् वाधुश्रौ ३,  
६९ : १९.  
यावस- पाउ ३, १, १९.  
यावास- यवात्- द्र.  
याष्टीक- यष्टि- द्र.  
✓यास्, अयासिपम्<sup>a</sup> जैश्रौ १३ :  
२९; आपमं १, ९, ८; आमिच.  
यियासु- ✓या (वधा.) द्र.  
यीयप्स्यमान- ✓यम् द्र.  
✓यु(वधा.)<sup>d</sup> पाधा. भ्वा. पर. मिथणे-  
ऽमिथणे च; चुरा. आत्म. जुग-  
प्तायाम्, ष्यौति<sup>e</sup> अप ४८, ९;  
निष ३, १४; यूयाताम् आपश्चौ  
१४, २९, १; ष्यौत्<sup>f</sup> ष्यौत्<sup>f</sup>  
भाश्रौ ८, २०, ५; हिश्रौ २, ७,  
४६; हिश्रु २, १२, ८<sup>g</sup>; ष्यौत्<sup>f</sup>

आमिच ३, १, २ : १४-१६.  
ष्युयोतु माच १, २२, २; या ६,  
७; शैशि ५२; ष्युयोधि आपश्चौ  
३, १२, १२; आपश्चौ ११, १२,  
३; वौश्रौ; युयोत > ता ऋप्रा ७,  
५४; योयुवत कौस् ८८,  
१५; युयवन् या १२, ४४; युयोथाः  
हिश्रौ ४, ४, २२; युवते शाश्रौ  
१५, १६, १७; युवत > ता वाधुश्रौ  
३, ५५ : २; ष्योष्टाः आपश्चौ १०,  
२३, १; आपमं १, ३, १४; आमिच;  
ष्योष्ट<sup>h</sup> आपश्चौ १, १०, १; भाश्रौ;  
ष्योपम् आपश्चौ १०, २३, १;  
वौश्रौ १७, ४३ : ९; हिश्रौ.  
युयते या १०, ३९.  
यवयसि ऋप्रा ९, ४३; यवयन्तु  
ऋप्रा ९, ४४; ष्यवय, > या  
वौश्रौ ४, ४ : १४<sup>xx</sup>; भाश्रौ.  
यावयन्तु या १२, ४४; ष्यावय  
> या ऋप्रा ७, ३३; ९, ३२.  
ष्युयवत् या ९, ४२.  
रयवन- पाग ३, १, १३४.  
यावन- नम् या ४, २१.  
याच्य- पा ३, १, १२६.  
युत, ता- तः वैध १, ५, ३; याशि  
१, ८२; -तम् कौस् ८४, ३; विध  
९९, ८; -ता वैश्रौ १८, ६ : ६;  
याशि २, ११२.  
युयुपत्- पन् या ५, १५.  
युवत्- वतः सु ७, ४.  
यूति- पा ३, ३, ९७.  
१यूय<sup>a</sup>- पाउ २, १२; पाग २, ४,

३१; ४, १, ४१; ३, ५४; -धन्  
कौच ३, ६, ३; शांश्रु ३, ११, ८;  
पाच ३, ९, ६; काच ५९, ५;  
अप १८<sup>i</sup>, १, ११; ७०<sup>i</sup>, ११,  
३; ष्या ४, २४; उस् ३,  
१; -धस्य निस् १, ७ : १४; आच  
४, ८, ३; विध ८६, ८; या  
११, ४९; -या अश्र १८, ३; -धे  
कौच ३, ६, ६; ७; शांश्रु ३,  
११, ११; १३; पाच ३, ९, ६;  
काच ५९, ५; -धेन शांश्रु ३, ११,  
९; अप १८<sup>i</sup>, १, ११.  
यूथी- पा ४, १, ४१.  
ष्युय-(त्व >) त्वा- त्वायै कौस्  
२४, २०; अप १८<sup>i</sup>, १, ११.  
यूध्य- पा ४, ३, ५४; -ध्यः  
हिश्रौ ४, ३, १; -ध्यम् वैश्रौ १०,  
९ : १४.  
यून- नम् काश्रौ ५, ८, २८; हिश्रौ  
१६, ८, १५; -नानि काश्रौ १, ३,  
१४; -ने काश्रौ १, ३, १५.  
यून-वद्- वद्म् काच ४, ४.  
ष्युयुवि<sup>a</sup>- विः ऋप्रा ९, ४८;  
शैशि ५९.  
योत्र- पा ३, २, १८२.  
योयुव(त् >) ती<sup>a</sup>- त्यः साश्र २,  
८६२.  
१यु- ✓या (वधा.) द्र.  
२यु<sup>1</sup>- युः या १, ८.  
युक्त- प्रयु., १-५युग- प्रयु. ✓युञ् द्र.  
✓युङ्ग् पाधा. भ्वा. पर. वर्जने.  
✓युञ् पाधा. भ्वा. पर. प्रमादे.  
✓युञ् पाधा. दिवा. आत्म. समापौ;

a) वैप १ द्र. । b) पामे. वैप १, २५७९ h द्र. । c) पामे. वैप १, २५७९ j द्र. । d) ना ३,  
१५ नीन ४, १२ पा ६, ४, ५८; ७, २, ४९ परानुष्टः द्र. । e) धा. अर्चायां युतिः । f) पामे. वैप १, २५९२ l द्र. ।  
g) नया. यूयवम् <> योद्यवम् <> योयुवत <> योष्ट <> युद्धवम् इति पामे. । h) Böht [ZDMG  
५२, ८७] युद्धवम् इति शोधः ? (तु. पामे.) । i) पामे. वैप १, २५९२ m द्र. । j) = प्रत्यय- । k) अत्र  
४८, १७ पावा ३, १, ८७ परानुष्टः द्र. ।

रुधा. उम. योगि; चुरा. उम.  
संयमने, ण्योज>जा वौश्रौ ५,  
१५ : ११; १४; वाश्रौ; ऋप्रा ७,  
१८; शुप्रा ३, १०७.  
ण्युजे आश्री ४, ९, ४; शांश्री ४,  
१८, १<sup>०</sup>; वैश्री; ण्युक्ष्व>क्ष्वा  
आश्री ४, १३, ७; ७, १०, ४;  
शांश्री; काश्री १७, ५, ५<sup>०</sup>;  
आपश्री<sup>०</sup> १६, २६, १३<sup>३</sup>; १७,  
१०, ११<sup>३</sup>; वौश्री १०, ३३ :  
१३<sup>२०</sup>; वाश्री २, १, ७, २<sup>२०</sup>;  
वैश्री १८, १८ : १२<sup>२०</sup>; १९, ६ :  
२१<sup>०</sup>; हिश्री ११, ३, २६<sup>०</sup>; ७,  
५३<sup>०</sup>.  
युञ्जति जैश्री ५ : १०.  
युङ्क्ते आश्री ४, १२, ३<sup>०</sup>;  
आमिग; युनक्ति शांश्री १४, ३१,  
४; काश्री; युञ्जते ण्यआश्री ५,  
१२, ९<sup>३</sup>; ७, ५, २३; शांश्री;  
युञ्जन्ति आश्री ६, ४, १०<sup>०</sup>;  
शांश्री २, १७, १<sup>०</sup>; १२, १, ४<sup>०</sup>;  
१७, १५, १; काश्री; ण्युजे  
जैश्री ८ : १६; द्राश्री २, ४, ११;  
लाश्री १, ८, ९; ण्युनञ्मि आश्री  
६, ११, ९; ७, ४, ७; शांश्री;  
आपश्री १८, १७, १<sup>०</sup>; वौश्री १२,  
७ : ३४<sup>०</sup>; हिश्री १३, ६, २<sup>०</sup>;  
ण्युनक्तु आपश्री १, १६, १०; ४,  
४, ४; १×१; वौश्री; ण्युङ्क्ताम्<sup>०</sup>  
वौश्री १, ८ : १९; ३, १५ : १३;  
वैश्री ४, ९ : ८; ण्युक्ष्व>क्ष्वा  
जैश्रीका ५८; २१३; चाश्र ४१ :  
५; साव; ण्युङ्घि आश्री ४,  
१२, २<sup>०</sup>; वौश्री; ण्युञ्जायाम्

शांश्री ६, ६, ६; काश्री; युङ्ध्वम्  
आश्री २, ७, ६<sup>१</sup>; वौश्री १४, १७ :  
२१<sup>०</sup>; ण्युङ्क्त् काश्री २१, ३, ३३;  
पागृ ३; १४, २; ण्युनक्त वौश्री  
१०, २५ : ३; वैश्री १८, १५ : १३;  
अश्र ३, १७; युञ्जानि हिगृ १,  
२४, ४; अयुङ्क्त या ४, ११;  
अयुनक् वाधूश्री ४, १०३ : ८;  
ण्यआयुनक् हिपि १८ : २१;  
ऋप्रा २, ७६; उस् २, ६; शुप्रा  
३, १२९; अयुञ्जत शांश्री  
८, २०, १<sup>०</sup>; अयुञ्जन् वौश्री  
११, ६ : २२<sup>०</sup>; युञ्ज्यात् वौश्री  
२२, ११ : २१-२३; द्राश्री.  
युयुजे या ७, ७<sup>०</sup>; अयुक्त या ४,  
११<sup>०</sup>; ण्यआयुक्त ऋप्रा २, ७७;  
उस् २, १५; ण्यअयोक्षीत्<sup>०</sup>  
आपश्री ३, १३, ५; भाश्री ३, १२,  
४; ४, २०, २; वैश्री ७, १२ : ७;  
अयोक्षीत्<sup>०</sup> हिश्री २, ६, ३१<sup>०</sup>;  
आयुत्ताताम्<sup>०</sup> ऋप्रा २, ७७<sup>०</sup>.  
युञ्जते वौश्री २, ३ : २१; ११,  
६ : २६×१; निस्; युञ्जते निस्  
१, १२ : १३; युञ्जन्ते निस् ६, ८ :  
३६; कौसू ५९, २४; या ७, १;  
ण्युञ्जसे आपश्री १६, २६, १;  
वौश्री; युञ्जे वौश्री ३, २३ : ७<sup>०</sup>;  
युञ्जाते वौश्री १, १२ : २३<sup>०</sup>;  
युञ्जन्ताम् वौपि १, १५ : १८<sup>०</sup>;  
युञ्जते पागृ १, १४, ३; अप ७०,  
८, ३; गौघ १८, २१; हिश्र ४,  
२०; युञ्जेत् अप १, ४३, ३;  
युञ्जेथाम् माश्री २, १, ४, २७<sup>०</sup>.  
अयोजि वौश्री ७, ३ : २<sup>०</sup>.

योजयति वौगृ ४, ४, ६; योजयन्ति  
कागृ ५७, ४; कप्र १, ९, १५;  
योजयेत् वौश्री २९, ११ : ७; आगृ  
४, ३, १; पागृ.  
योज्यन्ते गौपि १, १, १७.  
योज्येत आपश्र ११, १६; वौश्र  
२१ : ७.  
युक्त, क्ता- पाग २, १, ५९; -क्तः  
शांश्री २, १६, २<sup>०</sup>; काश्री २२, ४,  
१७; आपश्री; पा ४, २, २३;  
-क्तम् काश्री १०, २, ७;  
१५, ८, २३; वौश्री; वैध १,  
११, १०<sup>१</sup>; पाग १, १, ३७<sup>१</sup>;  
-क्तयोः कौसू १४, २४<sup>०</sup>; २३,  
१२; ५०, १७<sup>०</sup>; -क्तस्य वौपि  
१, १५ : १६; -क्ता आश्री ८,  
५, १५; ण्यआपश्री २, ५, १०;  
२१, १२, ३<sup>०</sup>; अप; -क्ताः  
काश्री ३, ४, १९; ५, ६, २३;  
आपश्री; -क्तान् आपश्री १६,  
१८, ६; वैश्री; -क्तानाम्  
वौध ४, ३, १; ४, १; आज्यो  
५, ७; -क्तानि आश्री ११, १, १;  
शांश्री १५, ३, १४; आपश्री १८,  
३, ५; वौश्री; -क्तभ्याम् कौसू  
१८, १५; २३, ३×१; अप ४४,  
४, ८; -क्ताय अप १४, १, १४;  
-क्तायाम् विध ९०, १; -क्तासः  
शांश्री ९, २८, १०<sup>०</sup>; -क्ते  
वौश्री १४, १९ : १९; वाश्री  
३, ४, १, ४४; अप; पा २, ३, ४<sup>१</sup>;  
६, २, ६६; पावा ३, २, १३५;

a) पाभे. वैप २, ३खं. युजे माश्र १४, ९, ३, ३:टि. द्र. । b) पाभे. वैप १, २५९४ j द्र. । c) पाभे.  
वैप १, २५९५ b द्र. । d) पाभे. वैप १ विमुञ्चताम् तै १, १, ७, २ टि. द्र. e) पाभे. वैप १, २५९५ j द्र. ।  
f) पाभे. पृ २०३२ q द्र. । g) परस्परं पाभे. । h) वैप १ द्र. । i) पाठः? अयुक्तम् इति c. । j) वा.  
क्रिवि. (तु. पागम.) । k) सपा. हिश्री १६, ४, ३५ युक्त्वा इति पाभे. । l) भाप. (योग-)

६३, ४५; -क्तेन वाधूश्रौ ४,  
१०३: १२१; कौट १, ९, १६;  
शांशु; -क्तेषु आपश्रौ ६, २८,  
७; माश्रौ १, ६, ३, १; वाश्रौ;  
-क्तौ आपश्रौ ३, ९, १०१; वौश्रौ.  
युक्त- -क्तम् पा ८, १, ३०.  
युक्त-प्रावन्<sup>१</sup>- वा वैताश्रौ  
२५, १३.  
युक्त-त्व- -त्वात् काश्रौ ४, ९,  
७.  
युक्त-दण्ड<sup>२</sup>- -ण्डाः अप ५०, ४,  
७.  
युक्त-नामन्<sup>३</sup>- -मभिः काश्रौ ४,  
४, १७.  
युक्त-नाह<sup>४</sup>- -हम् वैश्रौ ११, ९: १.  
युक्त-पूर्णा(ण-श्च)न्त<sup>५</sup>- -न्तः  
पावा २, १, ३५.  
युक्त-वत् पा, पावा १, २, ५१९.  
युक्त व(त् >)ती<sup>६</sup>- -तीभ्याम्  
हिश्रौ ११, ७, ५३.  
युक्त-संभव<sup>७</sup>- -वे वेज्यो १९.  
युक्त-सुच<sup>८</sup> > यौक्तुच<sup>९</sup>-  
-चम् लाश्रौ ६, ११, ४१; निस्र  
७, ३: १५.  
युक्त-स्वर<sup>१०</sup>- -रः पावा ६, २, ५२.  
युक्ता(क्त-श्च)रोहिन्- पाग ६,  
२, ८१.  
युक्ता(क्त-श्च)र्ध-संप्रत्यय- -चात्  
पावा २, १, ३५.  
युक्ता(क्त-श्च)श्च<sup>११</sup> > यौक्ता-  
श्च<sup>१</sup>- -श्चम् निस्र ७, ३: २७;  
-घषोः लाश्रौ ६, ११, ५; -इवे

जैश्रौष ६.  
यौक्ताश्च-सौवर्ण- -र्गानाम्  
लाश्रौ ६, ११, ४.  
यौक्ताश्च-हाविष्मत्-  
-ते निस्र ९, ४: ३०.  
युक्तो(क्त-उ)त्तम- -मात् भाशि  
८७.  
युक्ति- पाग ३, ३, १०८<sup>१२</sup>; -क्तिः  
काट ९, २; मागृ; -क्तिभिः  
विष ७, १२; -क्त्यै काट ९, ३१.  
युक्ति-दण्ड-हर- -रेषु पावा ६,  
३, २०.  
युक्ति-युक्त- -क्तम् याशि २,  
११७.  
युक्त्वा काश्रौ १४, ४, १३ x x; वौश्रौ;  
हिश्रौ १६, ४, ३५<sup>१</sup>; द्राश्रौ.  
युक्त्वाय वाधूश्रौ ४, १०३: ९१.  
युग<sup>१३</sup>- -नोन<sup>१४</sup> आपश्रौ १४, ३१,  
३१.  
युग-पद<sup>१५</sup> > पाग १, १, ३७; ४,  
५७; ५, १, १२४; -पत् काश्रौ  
२, ४, २४; ५, १९; ३, ६,  
१६ x x; आपश्रौ.  
यौगपद्य- पा ५, १, १२४;  
-द्यम् मीस्र १, १, १५; ११, १,  
५५; ६७; -द्यात् मीस्र १, १,  
९; १९; -द्ये शाश्रौ १३, १४,  
२; मीस्र ६, ५, ४९; ११, १, ५४<sup>१६</sup>.  
युगपत्-कर्मन्- -र्मन्सु द्राश्रौ  
३, १, १; लाश्रौ १, ९, १.  
युगपत्-काल<sup>१७</sup>- -काल् आपश्रौ  
८, ५, १८.

युगपत्-प्राप्ति- -प्तेः मीस्र  
११, १, १६; -प्तौ आट ४, ४, ५.  
युगपद्-अधिकरण-वचन-  
-ने पावा २, २, २९.  
युगपद्-धन्वाचय-यौग-  
पद्य- -द्यम् पावा १, १, ४४.  
युगपद्-माव- -वः काश्रौ १,  
७, १; -वात् काश्रौ १, ५, १.  
युगपद्-वचन- नम्, -नस्य  
पावा २, २, २९.  
युगपद्-वचना(न-श्च)पुप-  
पत्ति- -त्तिः पावा १, १, ६.  
युगपद्-वचना(न-श्च)भाव-  
-वः पावा १, २, ६४.  
युग<sup>१८</sup> > युग-अह<sup>१९</sup>- -हाः अप  
५२, १२, २२.  
युग-ल<sup>२०</sup>- पाटभो २, ३, ९९<sup>१९</sup>.  
युगला(ले-श्च)दि<sup>२१</sup>- -दिः  
नाशि २, २, १८.  
युग-संपन्न- -न्नम् माशि ११, ८.  
युग<sup>२२</sup> > पा ४, ४, ७६; पाग ५, १,  
२; ६६; ६, १, १६०; -गम्  
शाश्रौ १६, १३, १४<sup>२३</sup>; वौश्रौ;  
आपश्रु ६, ९; -यैगस्य आपमं  
१, १, ९; १०; काट; -यैगा  
वौश्रौ १०, २५: ३; वैश्रौ १८,  
१५: १४.  
युग-च्छिद्र- -द्रम् आपट ४, ८.  
युग-तर्कन्- -र्कन् माश्रु १,  
१०, ७<sup>२४</sup>; -र्कन् कौस्र ३५, ६;  
५०, १८; अप १८<sup>२५</sup>, ६, ३; -र्कनि  
काट २५, ९; कौस्र ७६, १२<sup>२६</sup>

a) वैप १ द. । b) दस. । c) कत. । d) दस. > वस. । e) वैतु. पावा. [पक्षे] 'यद्-व्यभिः' इति समस्तमिव सन् पूव. क्तव्यन्तमिति । f) = (युक्तशब्दवती-) श्रन्- । g) पूव. = (सूर्या-चन्द्रमसोः) योग- । h) = ऋषि-विशेष- । i) = ताम-विशेष- । j) 'श्रुचम्' इति पाठः? इति. शोधः (तु. नि. ५) । k) तु. पागम. । l) पाठे. पृ २०३३ k द. । m) वैप ३ द. । n) वा. क्तिव. (तु. भा. मा नि. ३, ७, १०, १) । o) वैतु. अभा. < √यु वा युग- (अर्थः?) + √पय् वेति? । p) 'चात्' इति प्रथामं. । q) < √युन् । r) पम. । s) 'यन्मनः' इति पाठः? इति. शोधः ( तु. Kn. टि., [अर्थतः] भाष्यव ) ।

-ईसु काग २६,३.

युग-धार<sup>१</sup>-रस्य मागृ १, १०, ४.

युग-धुर<sup>२</sup>-धुरम् आपथ्रौ १, १७,६; माथ्रौ १,१९, ४; -धुरि आपथ्रौ २०,१६,१; वैथ्रौ ७,८ : ६; कौसू ७६, १२; -धुरोः आपथ्रौ ३,८, ४<sup>३</sup>; -धुरौ आथ्रौ ४, १३, ६; वैथ्रौ १५, ४ : १. युगं-धर(वप्रा.)-पा ४,२,१३०<sup>०</sup>; पाग ४, १, ९९<sup>१</sup>, १७३<sup>२</sup>; -रः अप ६८, २, ४३<sup>३</sup>.

यौगन्धर-, रक- पा ४, २, १३०.

यौगन्धरायण- पा ४,१,९९.

यौगन्धरि- पा ४, १, १७३;

-रिः आपमं २, ११, १२<sup>१</sup>.

युग-लाङ्गल<sup>१</sup>-लम् आपथ्रौ १६, १८, ४; वौथ्रौ १०, २४ : २०×४; वैथ्रौ.

युग-वरत्र,त्रा<sup>२</sup>- पाग ४, २, ४५<sup>३</sup>; -त्राणि माथ्रौ ६, १, ५, ३५; वाथ्रौ २,१,५,१.

यौगवरत्र- पा ४,२,४५.

१.युग<sup>३</sup>- पा ४, ४, ७६; ५, १, २; ६६; -ग्यस्य निस् २, ४ : १७; -ग्यौ आपथ्रौ २२, ५, ५; वाथ्रौ ३, १, १, ४२; २, १३; हिथ्रौ १३,१,४९; १७,२,३३.

युग्य-कृत<sup>४</sup>- ते हिथ्रौ ७, ५, १<sup>५</sup>.

१युग्यक्रोशोत्सर्ग- णेण

हिथ्रौ १७,१,३६.

युग्य-घास- सः आपथ १, १८, १; २८, ३; हिथ १, ५, ७१; ७,३९.

४युग<sup>५</sup>- नाम् शंघ ११६ : ४६; वेज्यो ६; २८; -गस्य वेज्यो ५; -गानि या ४,२०<sup>६</sup>; ९,२८. युग-पर्यन्त- न्तम् वृदे ३, २४. युग-लब्ध- ल्धम् वेज्यो २५. युग-सहस्र- स्रम् या १४,४<sup>७</sup>. युगसहस्र-पर्यन्त- न्तम् या १४,४.

युगसहस्रा( स-अन्त > )

न्ता<sup>८</sup>- न्ताम् या १४, ४.

युगा(ग-अ)न्त- न्तः अप ६३, ३,८; -न्तम् अप ५०, ५, १; -न्तस्य अप ५०, ७, ३; -न्तात् वौथ्रौ ६, २५ : १४.

५युग<sup>६</sup>- गम् काशु २, ४; वौथ्रु १ : ५; हिथ्रु २, ३८; -गे आपथ्रु ६, १४; वौथ्रु १ : ७; हिथ्रु २, ४३; -गेन आपथ्रौ ७, ३, १२; आपथ्रु ६, १३.

युग-प्रमाण- णम् काशु २, १०.

युग-मा(त्र >)त्री- त्री माथ्रौ ७, २, १८; -त्रीम् काथ्रौ ५, ३, २९; १७, ३, १४; माथ्रौ १२, ५, ३.

युगमात्रो( त्र-उ)द्वित- ते काशु ७, ३५.

युग्म,ग्मा- पाठ १, १४६; -ग्मम्

वैगृ ६, १ : १०; गोगृ २, ७, ४<sup>९</sup>, अप ७०<sup>१</sup>, ११, २; ऋत ५, ३, १; आज्यो ६, १३; वेज्यो ९; -ग्मयोः ऋषा २, १९; -ग्माः काथ्रौ १६, ७, २४; वौथ्रौ १८, ५१ : २७; २८<sup>२</sup>; लाथ्रौ ६, ५, १५; वृदे ४, ४४; ७, ३०; ऋत २, २, ६; -ग्मान् आगृ २, ५, १३; कौगृ ३, १४, १९; शागृ ४, ४, ४; आगृगृ- ग्मानाम् वौथ्रौ १८, ५१ : २९; -ग्मानि आगृ १, १५, ७; गोगृ ४, ५, २०; -ग्माभिः वृदे ८, २९; -ग्माम् आपगृ ९, १; वौगृ १, ७, ४५; -ग्मासु आथ्रौ ५, १४, २२; आज्यो १३, ३<sup>३</sup>; -ग्मे आज्यो १४, १; -ग्मेन आगृ १, १४, ४; पागृ १, १५, ४<sup>४</sup>; -ग्मेभ्यः आथ्रौ ८, ७, १६; -ग्मेसु आथ्रौ ७, ६, ७; १२, ६, १२; वैताथ्रौ ३१, २४; -ग्मैः वाथ्रौ ३, ४, २, ६; वैथ्रौ ११, १० : ३; -ग्मौ वैथ्रौ १७, १३ : ४; ऋषा १, १३; १६, ५७.

युग्म-कृत<sup>५</sup>- ते वैथ्रौ १४, ५ : ७<sup>५</sup>.

युग्म-कृष्णल<sup>६</sup>- लम् कौसू ११, १९; ५२, २०; अशां १९ २; ५.

युग्म-मास<sup>७</sup>- सेसु द्राथ्रौ ८, ४, ६; लाथ्रौ ४, ८, ६.

- a) = युग-कीलक- । b) पस. । c) उप. = छिद्र- इति रुद्रदत्तः (आपथ्रौ १, १७, ६) O. च, = कीलक- इति MW. । d) पाभे. घृ. १३५० e द्र. । e) = जनपद-विशेष- । f) = ऋषि-विशेष- । g) = क्षत्रियजाति- विशेष- । h) शकट-वंश- । i) = राज्ञ-विशेष- । j) मलो. कस. वा समाहारे द्रस. वा । k) पस. उप. = चर्म-रज्जु- । l) °त्रा- इति पासि. । m) पाका. ष°त्रा इति ? । n) वैप १ द्र. । o) वस. (तु. पा २, २, ३७ पाभे. च; वैतु. भाष्यम् कस. इति) । p) सप्र. आपथ्रौ ११, ६, ३ माथ्रौ १२, ६, ९ नह्युगे इति, वौथ्रौ ६; २४ : १४ योग्यकृते इति, वैथ्रौ १४, ५ : ७ युग्मकृते इति च पाभे. । q) = काल-वचन- । वैप ३ द्र. । r) वस. । s) = (८६ अष्टगुलि-परिमित-) प्रमाण-विशेष- । t) परस्परं पाभे. । u) कस. ।

युग्मा(ग्म-अ)न्त(स्थ>)  
स्था<sup>b</sup>- >न्तस्था-दन्तमूलीय-  
पूर्व- ऋः ऋप्रा ५, २०.

युग्मा(ग्मा-अन्त्य>)न्त्या<sup>b</sup>-  
न्त्याभिः ऋश्च २, १०, १०८.

युग्मा(ग्म-अ)न्वय<sup>c</sup>-त्व- त्वात्  
आश्रौ ८, १२, १९.

युग्मा(ग्म-अ)युक्त- क्ताः लाश्रौ  
६, ५, १५.

युग्मा(ग्म-अ)युज्- युग्म्यः  
लाश्रौ ६, ५, २६; -युजाम् लाश्रौ  
६, ५, २९.

युग्मायुक्-पर्याय- याणाम्  
निसू १, ८ : ३०; ३४; ४१; ४४;

युग्मायुक्-संहार- रः लाश्रौ  
६, ७, ८.

२युग्य- न्यम् पा ३, १, १२१.

युज्, व्ज<sup>d</sup>- पा३, २, ५९; युक्षु माश्रौ  
५, २, १, २२; ऋयुङ् आपश्रौ

१८, १७, १२××; वौश्रौ;  
युजः ऋशाश्रौ १२, २, १४; १८,

३, २; आपश्रौ; युजम् शैशि  
२८८ऋ; ऋयुजा आपश्रौ १२,

२२, ५<sup>e</sup>; १७, ५, २××;  
वौश्रौ; युजाम् लाश्रौ ६, ५, २७;

ऋयुजे काय ९, ३; माय १, ४,  
३; वायु; युजोः ऋप्रा १३, ३९;

युजो ऋश्च १, ७, ८; ८, ५; शुश्च  
५, ५५; ऋयुजम् या ९, २४ऋ.

युग्-मत्व- मत्वाम् निसू १, ८ :  
३०; ३३; ४१; ४३; -मन्तः

निसू १, ८ : ३; ६; ९ : १.  
युजान- पाडना २, ८७; -ऋनः  
माश्रौ १८, ११, २; ऋश्च २, ६,

४७; शैशि १४६.

युज्य- न्यः आय ३, ६, ६ऋ.

युज्यमान, ना- नः अय १५, १, ३;

अश्च ९, ७ऋ; -नम् काश्रौ १७,

२, १०; माश्रौ; -ना आश्रौ ६,

४, १०; -नानाम् मीसू ९, १,

२; -ने काश्रौ २१, ३, ३३.

युज्जान- पाग ५, २, ६२; -नः काश्रौ  
१६, २, ७; आपश्रौ.

युज्जानक- पा ५, २, ६२.

युयुक्षमाण- गः निसू ८, १२ : १६;  
९, १ : ५१.

योक्तव्य- न्यः वौश्रौ २, ३ : २२;  
१४, ५ : ४१.

योक्तु- क्ता आपश्रौ २, २०, १८;  
हिध २, ५, १०४.

योक्त्र<sup>d</sup>- पा ३, २, १८२; -क्त्रम्  
आश्रौ १, ११, ३; शाश्रौ १, १५

९; काश्रौ; -क्त्रस्य आश्रौ १,  
११, ८; -क्त्रा वौश्री ३, १९ :

११ऋ; -ऋक्त्राणि अय ४८, ८२;  
निध २, ५<sup>e</sup>; या ३, ९ऋ; -क्त्रेण

काश्रौ ७, ४, ६; आपश्रौ २, ५,  
४; १०, ९, १३; वौश्रौ.

योक्त्र-परिहरण- णम् काश्रौ  
१८, ६, २.

योक्त्र-पाश- शम् आपश्रौ ३,  
१०, ६; ८, ८, १४; १०, २८, १;

२९, ९; काश्रौ.  
योक्त्र-मेखला- ले आपश्रौ  
१३, २०, १४.

योक्ष्यमाण- णः या ५, २१.

योग(वप्रा.)<sup>d</sup> - पाग ५, १, १०१<sup>b</sup>;  
-नः वायुश्रौ ४, ८५ : ११-१३;

निसू ७, ११ : २२; काय; वाध ६,  
२३; २५, ८<sup>e</sup>; आपश्रौ १, २३,

६; वौध ४, १, २७; वैध १, ११,  
१३<sup>f</sup>; हिध १, ६, १४; गौध

१०, १२; काश्रु १, २५<sup>g</sup>; आपश्रु  
२, १<sup>h</sup>; हिश्रु १, २०<sup>k</sup>; आश्रयो

७, २२<sup>l</sup>; वेज्यो २६<sup>m</sup>; -नम्  
वौश्रौ ११, ६ : २६; १२, ७ :

३६; वायुश्रौ; अय १, २६, २<sup>n</sup>ऋ;  
या १४, ६<sup>o</sup>ऋ; -नयोः पावा

१, १, ६७; -गस्य पावा १,  
१, ४९; -गाः चञ्चू २ : ३३;

-गात् हिपि १९ : ४; वाध;  
-गान् आपश्रौ १, २२, १<sup>p</sup>; हिध

१, ६, १<sup>q</sup>; पावा १, ३, ११; -गाय  
काय ९, ३ऋ; कौसू ४२, ४<sup>r</sup>ऋ;

या १०, ३; -ने वौश्रौ २०,  
८ : २४; २२, ११ : २१;

वैताश्रौ; -ऋगेड-ने आश्रौ ६,  
४, १०; शाश्रौ ९, १७, १; काश्रौ;

-नेन वौश्रौ १, ८ : १८; ३,  
१५ : ११<sup>s</sup>××; अय; वौध ४,

१, २७; -नैः अय ७, १, १.

योगिक- पा ५, १, १०२.

योग- नो पा ५, ४, ५०.

योग-क्षेम<sup>c</sup> -मः शाश्रौ १०,  
१८, ८<sup>t</sup>; -मम् कौसू ११४,

२ऋ; अय ५०, ४, ३; ७१, १९,  
९; विध १८, ४४; गौध ११,

१८; -ऋमस्य आश्रौ ३, १४,  
१३; आपश्रौ ९, १६, ११;

माश्रौ ९, १९, ८; दिश्रौ १५,  
४, ५९; -मान्याम् कौसू ५६,

१३ऋ.

a) क्त. उप. = रेफ-वकार- ।

b) दत्त. ।

c) दत्त. ।

d) वैप १ द. ।

e) पाभे. वैप १,

२५९८ f द. ।

f) = वायुग्लि- ।

g) भाप., नाप. ।

h) तु. पागम. ।

i) योगम् इति C. ।

j) = युक्ति- ।

k) = (विहरण-साधन-) रज्जु- (तु. भाष्यम् १, १) ।

l) = (ज्योतिष-) संज्ञा-विशेष- ।

m) = योग-नाम- ।

n) = योगात्- ।

योगक्षेमा(म-अ)र्थ- -र्थम्  
विध ६३, १; गौध ९, ६३.  
योग-पर<sup>a</sup>- -रः शंघ २००.  
योग-परीष्टि<sup>b</sup>- -ष्टिः या १, १४.  
योग-प्रमाण- -णे पा १, २, ५५.  
योग-प्ररोह- -हः आज्यो ८, ७.  
योग-भूत<sup>c</sup>- -तम् विध ४९, ८.  
योग-महामन्त्र-मय<sup>d</sup>- -यः  
विध १, ८.  
योग-मार्ग-तत्त्व-ज्ञ- -ज्ञाः  
वैध १, ९, २.  
योग-मूल<sup>e</sup>- -लः आपघ १,  
२३, ३; ५; हिध १, ६, ११; १३;  
-लाः बौध ४, १, २७.  
योग-योग<sup>f</sup>- -नोपु आज्यो १४,  
६.  
योग-विद्- -वित् काशु ७, ५.  
योग-विभाग- -गः पावा १,  
१, १८; ४, ५८; ५९××; -गात्  
पावा १, १, ३; ६१××.  
योग-विमोक- -कौ आपश्रौ २१,  
५, ६; ८.  
योग-विमोक्षण- -णे हिश्रौ १६,  
२, ७.  
योग-विशेष- -पान् आश्रौ ११,  
१, १.  
योग-व्यवसान- -नम् पावा २,  
४, ८३.  
योग-शेष- -वे पावा १, १, ५२.  
योग-संपत्तिक<sup>g</sup>- -कम् आज्यो  
२, ११<sup>h</sup>.  
योग-सामान्य- -न्यात् मीस्  
४, २, १०.  
योग-सिद्धि- -द्धिः मीस् ४, ३,

२६.  
योगहासया अप १, ६, ९.  
योगा(ग-आ)ख्या- -ख्या मीस्  
१, ३, २१.  
योगा( ग-आ )पत्ति- -त्तिम्  
आश्रौ १, १, १.  
योगा( ग-अ )प्रख्यान- -नात्  
पा १, २, ५४.  
योगा(ग-अ)भाव- -वात् पावा  
१, २, ५१.  
योगा( ग-अ )भ्यूह- -हाभ्याम्  
वौश्रौ २०, ६ : २९; -हौ वौश्रौ  
२०, ८ : २२.  
योगा(ग-अ)र्थ- > -र्थिन्- -र्थी  
वैध २, ६, १.  
योगा( ग-आ )विर्भाव- -वः  
विध ९७, ६.  
योगा( ग-अ )विशेष- -घात्  
काश्रौ २२, १, १०.  
योगा( ग-आ )सन- -नानि  
आज्यो ७, २.  
योगिन्- -गिनः अप १९<sup>i</sup>,  
५, ५; विध ८३, १९; वैध १,  
१०, १; -गिनम् विध ८३, २१;  
-गिनाम् शुभ्र ४, १२६; -गी  
वैद्य ५, ८ : ३; शंघ ३७१;  
विध ९७, १६; शुभ्र ४, १२८.  
योगि-त्व- -त्वात् वृदे ३,  
११५.  
योगे(ग-ई)श्वर<sup>j</sup>- -ोर अप ३६,  
९, ३<sup>k</sup>.  
योग्य- पा ५, १, १०२; -ग्यः<sup>l</sup>  
हिश्रौ १३, ३, ४४; -ग्यम्<sup>l</sup>  
वौश्रौ ११, ६ : २१; २४; १२,

७ : ३३; ३५; १५, २४ : ३.  
योग्य-कृत<sup>m</sup>- -तम् वौश्रौ ६,  
१५ : १९; १२, १४ : ११; वाश्रौ  
१, २, ४, १९; -ते वौश्रौ ६, २४;  
१४<sup>n</sup>.  
योग्य- पाठ ४, २१६.  
योगिन्- पा ३, २, १४२.  
योग्य<sup>k</sup>- -ग्यः बौध ४, ७, १०;  
-ग्यम् अप ९, ४, ४; -ग्यस्य  
मीस् १, १, २२.  
योजन<sup>l</sup>- -नः हिपि २ : ११; -नम्  
आपश्रौ १६, १८, ४<sup>o</sup>; वौश्रौ  
१८, २० : १८; माश्रौ ६, १,  
५, ३५<sup>o</sup>; वाधुश्रौ ३, ६९ :  
१९<sup>m</sup>; वैश्रौ; -ना वौश्रौ ११,  
७ : ३६; -नात् शुभ्र १, २४;  
माशि ४, ९; -नानाम् माशि  
१६, ८; नाशि २, ८, १५;  
१६; -नानि सु १३, ४; अप  
४८, ८२<sup>o</sup>; निघ २, ५<sup>o</sup>; या  
३, ९<sup>o</sup>; -ने शाश्रौ १४, ४०, १४;  
काश्रौ २२, ३, ३२; आपश्रौ २२,  
२, २०; हिश्रौ १७, १, ३६; अप  
१, ४०, ३<sup>o</sup>; अशां १०, ३.  
यौजनिक- पा, पावा ५, १,  
७४.  
योजन-क- -कम् अप ६१, १, २७.  
योजन-पर<sup>p</sup>- -रः अप ६०, १, ५.  
योजन-भाज्- -भाक् अप ६१,  
१, २६.  
योजन-मात्र- -त्रेभ्यः काश्रौसं  
२७ : ६.  
योजन-शत- > यौजनशतिक-  
पावा ५, १, ७४.

a) वस. । b) उप. = परीक्षण- । c) कस. । d) विप. (विष्णु-) । e) पूष. = संज्ञा-विशेष- ।  
f) नाप. (कोप-) । g) णः सं० इति पाठः? यनि. शोधः । h) = रुद्र- । i) विप. (युग्य-] अश्व- ) ।  
j) -पाभे. पृ २०३५ p द्व. । k) विप. । प्यत् प्र. । l) भाप., नाप. (मन्त्र-; अश्वपरिमाण-) । m) अर्थः? ।  
n) = अह्युलि- ।

योजना(न-श्चा)दि- -दीनि  
 आपथौ २२, २, २३; हिथौ १७,  
 १, ३६.  
 योजना(न-श्च)ध्यहन- -ने द्राथौ  
 ३, २, १३; लाथौ १, १०, ९.  
 योजनी(य >)या- -याम् कौस्  
 १५, ५.

योजयत्- -यन् अप १, ३८, ४<sup>१</sup>;  
 अशां ८, ४.

योजयित्वा माथौ ६, १, ७, २६;  
 आपथ.

योजित- -ताः अप १, ७, ६.

युञ्- प्रभृ. ✓युञ् द्र.

✓युत् पाधा. भ्वा. आत्म. भासने.

युत- प्रभृ. ✓यु (वधा.) द्र.

✓युष्<sup>a</sup> पाधा. दिवा. आत्म. संप्रहारे,

युष्यते वौथौ १२, २० : २;  
 युष्यति आपथौ १८, १३, ४;

निघ २, १४<sup>१</sup>; युष्यन्ति अप  
 ७०, ७, ३; ऋयुष्ययाः आपथौ

२०, ६, १४; वौथौ; युष्यते कौस्  
 १५, १०; वौध १, १०, ११;

युष्येत् संघ २५३; युष्येयुः  
 आपथौ ११, ४, ८; माथौ.

योधिष्टम् शार्थौ ६, १०, ९<sup>१</sup>.

योधयति कौस् ४१, ६; योध-  
 य > या ऋप्रा ८, ३३<sup>१</sup>; योध-

येत् अप १, १०, ४.

युयुत्सति सु २०, २.

ययौयुध- -युत् ऋप्रा ९, १६<sup>१</sup>.

युद्ध- पाग ५, २, १३६; -द्धम्  
 अप ६४, ६, ९; ८, ७; -द्वाय

वीथौ १५, ७ : २०; वृदे ४,  
 १३१; -द्धे वौथौ १२, २० :

२; अप ६१, १, २०; आपथ २,

१०, १०; हिघ २, ४, १०; पा  
 ३, ३, ७३; आज्यो ४, ८.

युद्ध-जय-यु(क्त >)क्ता- -क्ताः  
 काथौ २०, २, ८.

युद्ध-वत्- पा ५, २, १३६.

युद्ध-वर्ण- -र्णाः या २, १६.

युद्ध-शूर- -राः आमिष्ट ३,  
 ४, ४ : ९; ११; वौपि ३, ४,

१४; १५.

युद्ध-हरण- -णेन विघ २४, २५.

युद्धा(द्ध-श्चा)दि- -देः वृदे ५,  
 १३४.

युद्धिन्- पा ५, २, १३६.

युद्धो(द्ध-उ)पकरण- -णम् वृदे  
 ५, १२८; -णानि अत्र ६, १२६;

या ९, ११.

युष्- युत्सु आथौ ३, ७, ७;

शार्थौ; युषः अत्र १०, १३;

युधा वौथौ १५, ६ : १३;

युधि आमिष्ट ३, ४, ४ : ९;

१०; वौपि; वृदे ५, १२४<sup>१</sup>xx.

युधा-जि- > वौधाजय<sup>१</sup>- -यम्  
 लाथौ ६, ११, ४; ७, ८, ५; जुस्.

वौधाजय-स्थान- -ने

निस् ६, १० : २२.

युधि-ष्टि(<त्थि)र- पा ८, ३,

९५; पाग ४, १, ९६.

वौधिष्टि- पा ४, १, ९६.

युधान- पाठ २, ९०.

युधि<sup>c</sup> > युधि-नाम<sup>c</sup>- -मः शार्थौ  
 १२, २१, ६<sup>१</sup>.

युष्म<sup>c</sup>- पाठ १, १४५; -ष्मत्त्व

आथौ ७, ११, २८<sup>c</sup>xx; शार्थौ.

युष्यत्- -ध्यन् वृदे ८, १३.

युष्यमान- -नाः आपथ २, २६, ३;

हिघ २, ५, १९८; -नेषु आथ  
 ३, १२, १९.

युयुत्समान- -नाः हिथौ २२, २, २५.

युयुत्सु- -त्सो वृदे ५, १३५.

युयुधान- पाठ २, ९३.

युयुधि<sup>c</sup>- -धिः ऋप्रा ९, ५०.

योत्स्यमान- -नः वृदे ६, १११.

योद्ध- -द्धारम् वृदे ५, १२९; -द्धन्  
 जुञ् २, २८७.

योध<sup>d</sup> > योध<sup>e</sup>- -धानाम्  
 लाथौ ८, ५, १.

रयोध<sup>h</sup>- पाग २, ४, ३१; ५, ४,  
 ३८; -धाः अप ५१, ४, ४; ६१,

१, ९; ७०<sup>३</sup>, ८, १; -धान् शांथ  
 २, २, १४<sup>१</sup>; अप १, ३१, ३;

-धानाम् आज्यो ४, ८.

रयोध- पा ५, ४, ३८; -धम्  
 कौग् २, २, ९<sup>१</sup>.

योधयत्- -यन् कौस् ८७, १२<sup>१</sup>;  
 वृदे ४, १३२.

योधिन्- -धिनः अप ५०, २, ६.

✓युप् पाधा. दिवा. पर. विमोहने,  
 योपयति माथौ ३, ४, ९; वाधूथौ

४, १४ : ५; मयोपयन् वाधूथौ  
 ४, १४ : ३; ४.

योयुष्यते आपथौ २, ३, ९; वौथौ  
 १, ११ : ३३; माथौ २, ३, १०;

योयुष्येत् वौथौ ५, २ : २.

युयोपयत्- -यन्तः<sup>१</sup> आमिष्ट ३, ७,  
 १ : २१; वौपि १, १७ : २०.

योपयित्वा कौस् ७१, १९<sup>१</sup>; ८६,  
 २२.

योयुपन- -ने वौथौ २०, ९ : ७.

योयुपित्वा वौथौ ४, ३ : २९; ५,  
 २ : ३xx.

a) पा १, ३, ८६ परामृष्टः द्र. । b) धा. गती वृत्तिः । c) वेष १ द्र. । d) = मान-विशेष- ।

e) ष्यस्य इति पाठः? यनि. शोयः (द्र. आन.) । f) = युद्ध- । g) तत्रगतीयः प्र. । h) = योद्ध- ।

i) मया. योषान् <> योधम् इति पाठे. । j) पाठे. वैन १, पृ २६०२ i द्र. ।



युयुत्तमाण- ✓युञ् द्र.  
 युयुत्समान- प्रम्. ✓युष् द्र.  
 युयूपत्- ✓यु (वधा.) द्र.  
 युव- युष्मद्-द्र.  
 युवत्- ✓यु (वधा.) द्र.  
 युवद्- युष्मद्-द्र.  
 युवन्<sup>a</sup>- पाठ १, १५६; पा ६, ४, १३३; १५६; पाग ५, १, १३०; १३३; युवभ्यः आपश्चौ २४, १३, ३१; वौश्रौ ३, २८ : १५१; गौध १५, १०; युवा ऋश्चौ ३, १, ९; ७, ८, ३; शांश्रौ; काश्रौ ४, ९, ११; वैताश्रौ १, ३; ४३, ३; ऋषाण्य २, २, ९; ६, २५; ११, १२<sup>b</sup>; काण्ड ४२ : ११; कौसू २, ११; अप २०, २, ६; ३८, ३, ५; आपध २, २६, १८; विध ३२, १४; हिध २, ५, २१३; या ४, १९६; पा ४, १, १६३; युवानः आश्रौ १०, ७, ३; ९; वाश्रौ १, १, १, २३; आण्य २, ७, ११; युवानम् आश्रौ ८, १, १८१; शांश्रौ; आण्य ३, १०, १०१; या १४, १८६; ऋषुवाना आश्रौ ६, १२, १२; ८, १०, २; शांश्रौ; आपश्चौ १३, १८, २; वैताश्रौ २३, १५; यूनः शांश्रौ ५, १, १; १६, २, ८; २९; आपश्चौ; यूनि पा २, ४, ५८; ४, १, ९०; ९४; पावा; यून आपश्चौ ८, १४, २४.  
 युवति<sup>a</sup>, ती- पाठभो २, १, १९२<sup>d</sup>; पा २, १, ६५; ४, १, ७७; प.ग ४, २, ३८; -तयः आश्रौ १०, ७, ४; आण्य ४, ६, ४; ११;

-तिः आपश्चौ ४, ५, ११<sup>x</sup>; भाश्रौ; हिश्रौ ६, २, २; १०; आपमं १, ११, ३; विध ३२, १३; -तिम् आमिण्य ३, ५, ८ : ३१<sup>o</sup>; कौसू; वैध २, ११, ४; या १०, २९६; -ऋती आपश्चौ ७, ५, १; भाश्रौ; -तीः शांश्रौ १६, २, ११; -तीनाम् वौध १, २, ३४; विध ३२, १४; गौध २, ४१; -ऋतीम्<sup>a</sup> वौषि १, ७ : ६; हिपि ४ : ८; -स्यः कौय १, ८, १; शांय १, १२, १.  
 यौवत- पा ४, २, ३८<sup>d</sup>.  
 युवति-ग्रहणा(ण-आ) नर्थक्य- न्यम् पावा ४, २, ३८.  
 ऋयुवति-दा- -दाः आपश्चौ १७, ५, १६; वैश्रौ १८, २१ : १८; हिश्रौ ११, ८, १०.  
 युवत्या( ति-आ)दि- -दिषु, -दीन् अप्रा ३, ३, २१.  
 यौवन- पा. ५, १, १३०; पाग २, ४, ३१; -नम् विध २०, ४९; वृदे ६, ५५; ७, ४४; -नानि कौसू ४६, ५४<sup>१</sup>; -ने आमिण्य २, ४, ५ : २३; अप ९, २, ७; ३, ३; वाध.  
 यौवन-व(त् >)ती- -ती नाशि २, ८, २८.  
 यौवन-स्य- -स्यान् अप ५३, २, ४.  
 यौवनक- पा ५, १, १३३; पावा ६, ४, १६३.  
 ✓युवकाम्य > ऋ(म्य >) म्या- -म्यया वृदे ६, ७७.

युव-खलति, ती- युव-जरत्, ती- पा २, १, ६७.  
 युव-तर- -रः वाधूश्रौ ४, ३७ : ३.  
 ✓युवन्य<sup>a</sup> > युवन्यु- -न्यून ऋषा ४, ६९<sup>१</sup>.  
 युव-पलित, ता- पा २, १, ६७.  
 युव-प्रत्यय- -यस्य पावा २, ४, ५८.  
 युव-मारिन्- -रिणः आपध २, १६, २०; हिध २, ५, २०.  
 युव-राज- (> यक. यौवराजि [क >] का-, ऋकी-, यौवराज्य- पा.) पाग ४, २, ११६; ५, १, १२४.  
 युवराज-पुरोधस- -धसाम् अप ६४, २, ९.  
 युवराज-भय- -यम् अप ६३, २, ९.  
 युव-राजन्- -जानम् अप ६३, ३, ९.  
 युव-चलिन, ना- पा २, १, ६७.  
 युव-सं(ज्ञा >)ज्ञ- -ज्ञः पावा ४, १, १६३.  
 युव-स्थविर-स्त्री-पुंस<sup>b</sup>- -सानाम् पावा १, २, ६८.  
 युवा(व-आ)दि- -दीनाम् पावा ६, १, १३.  
 युवादि-प्रतिषेध- -धः पावा ८, ४, ११.  
 युवा(व-अ)ल्प- -ल्पयोः पा ५, ३, ६४.  
 युवनाश्व<sup>c</sup>- > यौवनाश्व- -ऋश्व आश्रौ १२, १२, ३; ४; आपश्चौ २४, ७, ११; १२; वौश्रौप्र २२ : ५; वैध ४, ३, ६; ऋष २, १०, १३४; साश्र १, ३७९.  
 युवनाश्व-वत् आपश्चौ २४, ७, ११; १२; वौश्रौप्र २२ : ५; वैध ४, ३, ६.

a) वैप १ द्र. । b) शोचार्थं पृ १५०५ e द्र. । c) पामे. वैप १, १३४९ a द्र. । d) < ✓यु । e) सपा. । ऋ ४, १८, १३ जायाम् इति पामे. । f) पामे. वैप २, ३खं. युवतिम् तैवा ६, १२, १ टि. द्र. । g) तु. BFG. पाका.; वैतु. पासि. यौवन- इति । h) द्रस. समासान्तः अच् प्र. उस्. (पा ५, ४, ७७) । i) = ऋषि-विशेष- ।

√युवन्य, युवन्यु- √युव- द्र.  
 यु(इ-उ)वर्ण- इ- द्र.  
 ऋ(व>)वा- -वा आपथौ १७,  
 २०, १४; माथौ ६, १, ८, १४;  
 वैथौ १९, ६: ३०; हिथौ १२,  
 ६, २२.

युवाकु- युष्मद्- द्र.  
 ?युवाचो<sup>१</sup> गौषि २, ५, १५१.  
 युष्म- युष्मद्- द्र.  
 युष्मद्<sup>२</sup>-

तव आथौ २, १०, १२; १४,  
 १२१; ३, १२, २९; आपथौ; पा  
 ७, १, २७; २, ९६.  
 तवक- पा ४, ३, ३.  
 तावक-, तावकीन- पा ४,  
 ३, ३.

तुभ्य- पा ७, २, ९५; -ऋन्थ<sup>३</sup> शाथौ  
 १०, ५, १९; वैताथौ ३२, ६;  
 -ऋन्थम् आथौ २, १०, १२; ३,  
 ७, १५; आपथौ २१, २०, ३०;  
 वाधूथौ; वाथौ ३, २, ५, ४३०;  
 हिथौ ६६, ६, ४१०; वैताथौ  
 ३४, ९८.

ते शाथौ १, ४, ५१; ऋआपथौ १,  
 ३, १३; १४; काठथौ; द्राथौ १२,  
 १, १९<sup>४</sup> लाथौ ४, ९, १३<sup>५</sup>;  
 वीथ १, २, ३६०; हिथ १, १३,  
 १७<sup>६</sup>?; पा ८, १, २२.

३<sup>७</sup>त्व, ३<sup>८</sup>त्वा- त्वत् ऋआथौ २, १४,

१२; ३, १०, २३; ६, २, ६; ४,  
 १०; काथौ; पा ७, १, ३२;  
 ऋत्वम् आथौ १, ३, ६; २, १६,  
 ७; शाथौ; माथौ ४, ४, ३५९;  
 लाथौ ५, ६, ८४; आपथं २, १९,  
 १४<sup>१</sup>-१६<sup>१</sup>; आमिथ ३, १, ३:  
 २५<sup>१</sup>; २८<sup>१</sup>; ३२<sup>१</sup>; भाग २,  
 १२: १२<sup>१</sup>; १७<sup>१</sup>; १३: ४<sup>१</sup>; हिथ  
 २, ४, २<sup>१</sup>; पा ७, २, ९४; त्वा  
 आथौ १, १३, १××; शाथौ;  
 आपथौ ३, १४, २<sup>५</sup>; हिथौ  
 १०, ५, १२<sup>१</sup>?; ११, ७, ५४;  
 आपथं २, ४, ५<sup>१</sup>-९<sup>१</sup>; १५,  
 ४<sup>१</sup>; १८<sup>१</sup>; कौत् ४३, १३<sup>१</sup>;  
 पा ८, १, २३; त्वाम् आपथौ  
 १, ४, ५; ६, १; वीथौ; ऋत्वे  
 आथौ २, १, १७; शाथौ.  
 त्वच्-ञी (<थी)- -द्वियः  
 निच् ३, ९: ५२.  
 ऋत्वत्-पिथ<sup>३</sup>- -तारः वीथौ ३,  
 १३: १३; वैथौ २, १०: ११;  
 तैप्रा ११, १६.  
 त्वत्-पुरोहित<sup>१</sup>- -ताः वीथौ १४,  
 २०: ३.  
 त्वत्-पूर्त- -तम् भाग २, ५:  
 १३<sup>१</sup>.  
 त्वत्-प्रसाद-तस् (: वृदे ६, ५६.  
 त्वत्-समीप- -पे विथ ९८, २.  
 त्वद्-अर्थ- -अर्थम् विथ १, ३२;

-थै शुप्रा २, ५९.  
 त्वदर्थ-वाचिन्- -चिनौ याशि  
 २, ५७.  
 त्वद्-गत- -तः वृदे ४, ७३.  
 त्वद्-दत्त- -त्तम् भाग २, ५:  
 १२<sup>१</sup>.  
 त्वद्-भार- -रः विथ १, ४७.  
 ?त्वद्वाप्योरधि<sup>१</sup> कौत् १, ८,  
 १३.  
 त्वद्विच्<sup>३</sup>- -द्विक् ऋप्रा ८, २८.  
 त्वद्-विवाचन<sup>३</sup>- -नाः वीथौ ३,  
 १३: १३<sup>१</sup>.  
 त्वन्-सुख- -खे सु १८, ५.  
 त्व-मति- -तिः पावा १, ४, ५१.  
 त्व-विधि- -धिः पावा १, ४,  
 ५१.  
 त्वा-दात<sup>३</sup>- -तम् वा ४, ४<sup>१</sup>कुं.  
 ऋत्वा(त्वा-आ)दि- -दि शुश्र १,  
 १२.  
 त्वान्-आहुति<sup>३</sup>- -तयः वीथौ  
 ३, १३: १३<sup>१</sup>.  
 √त्वाय<sup>३</sup>>त्वाया- -या आथौ  
 ४, १, २३<sup>१</sup>.  
 ऋत्वायु<sup>३</sup>- -यवः आथौ ६,  
 ४, १०; वैताथौ २६, ५; शुप्रा ५,  
 २०.  
 ऋत्वा-अत्<sup>३</sup>- पा, पावा ५, २,  
 ३९; -वतः शाथौ ९, ५, ३; १८,  
 १४, २; लाथः -ऋवान् आपथौ

a) वैप १ द. । b) पाठः? सपा. मा ९, १९ प्रन्त्. चाऽऽमा इति पामे. । c) पृ ३२८ हृ द. ।  
 d) शोधार्थं पृ १४५१ i द. । e) पृ १४५१ j द. । f) पाठः? त्वा इति स्यात्. (तु. पाग ३, १५, २२; Bōht  
 [ZDMG ५२, ८४] च) । g) पामे. वैप १, २६०६ ] द. । h) स्वम् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. मा ४, १) ।  
 i) पामे. पृ ११३७ a द. । j) छन्दस्तः भूयाः इत्यनन्तरं यनि. सुपठम् ( तु. Bōht [ZDMG ५२, ८६] ) ।  
 k) पामे. वैप १, १४०७ c द. । l) स्वा इति पाठः? यनि. शोधः । m) पामे. वैप १,  
 २६०७ f द. । n) पामे. वैप १, ७९३ b द. । o) पामे. वैप १, ८५१ a द. । p) यत्. ।  
 q) = तुम्हन्तुर्दार्थ- । r) पाठः? त्वद्-दाय- [= वृ-] > -दाय ययः (आयुः) पृथि इति त्रि-पदः शोधः । सपा.  
 ना ७, ८७ रवुगु दाय पृथि > तवक-दायै मय पृथि इत्यपि शोधः द. । तत्र शोधान्तरद्वये नरथ. मयम्-, हयम्-  
 इत्यपि दि. द. ।

१७,८,४; वाश्रौ २,१,८,५.  
 ङ्वो(त्वा-ऊ)त-त्ताः ऋप्रा ८,  
 २८.  
 \*त्वय्- त्वया आश्रौ २,९,१०;  
 ४,११,६; काश्रौ; माश्रौ १, ६,  
 १,४<sup>b</sup>; ङ्वयि माश्रौ २, २,१,  
 ७; आपमं २, १२, ३,४; कौघ.  
 \*युव- पा ७, २,९२; -ङ्वभ्याम्  
 आश्रौ ६,५,२४; -वम् ङ्वाश्रौ  
 १,६,१; २,५,२; शाश्रौ; -वयोः  
 तैप्रा ११,१६ङ्; -वाभ्याम् या  
 ६,९ङ्; -वाम् मागृ १, १०,  
 १६ङ्; या ४, १२; -ङ्वोः<sup>a</sup>  
 आश्रौ ४,१५, २; शाश्रौ ६, ६,  
 ६; १२,८,७; ऋघ.  
 ङ्वुवाङ्- -कवः ऋअ २,  
 १, १७; शुअ ३, २२१; ऋप्रा  
 १६, २१.  
 \*युष्म- ष्मत् आश्रौ २,१२, ५ङ्;  
 पा ७,१,३१; ष्मभ्यम् या ५,  
 १; पा ७, १, ३०; ष्मान्  
 ङ्वौश्रौ<sup>c</sup> १, ६ : ५; १३ : ३;  
 वाश्रौ १,२,३, २९ङ्; हिश्रौ ९,  
 ५, ४४ङ्<sup>d</sup>; सु १०,४; तैप्रा ६,  
 १४ङ्; ष्माभिः वाधूश्रौ ३,  
 ९२:२; पागृ १, ३,१३; -ङ्वे  
 शाश्रौ १२,१९,३; ऋप्रा १,७३;  
 शौच १,७७.  
 युष्माक- ङ्वकम् आश्रौ २,  
 ७,७; शाश्रौ ४,५,१; माश्रौ १,  
 १,२, ३५; पा ७, १, ३३.  
 यौष्माक-, ङ्वीण- पा ४,  
 ३,२.  
 युष्मान्नीत- -त्तः तैप्रा १३,

१५ङ्.  
 युष्मद्- पाठ १, १३१; पाग १,  
 १,२७; ४,१,१०<sup>e</sup>; ष्मदि पा  
 १,४,१०५; पावा १, ४, १०८.  
 युष्मत्-तत्-तत्क्षुस्- -क्षुःपु  
 पा ८,३,१०३.  
 युष्मत्-प्रसाद- -दात् अथ ४,  
 १,१७.  
 युष्मद्-अस्मद्- -स्मदोः पा ६,  
 १, २११××; पावा १, १,  
 ६३××; -स्मद्भ्याम् पा ७, १,  
 २७; पावा ४,३,१; ५,२,३९.  
 युष्मद्स्मच्-लेष-वचन-  
 -नम् पावा १,४,१०८.  
 \*युष्मद्-अस्मद्<sup>a</sup> पावा ६,४,१.  
 युष्म(द्-अ)स्मद्-अन्य- -न्येषु  
 पावा १,४,१०८.  
 \*युष्मद्-अस्मद्-हृदं-किं-लोप-  
 -नेषु पावा ६,१,१५७.  
 युष्मद्-आदेश- -शे अप्रा २, ३,  
 २८; शौच २, ८४.  
 युष्मदीय- पा ४, ३, १.  
 यूपम् शाश्रौ ४, ५, १ङ्; वौश्रौ;  
 पा ७,२,९३.  
 ङ्वः आश्रौ १, २, ७; १३, १;  
 २,५,१७<sup>b</sup>; ७,७<sup>c</sup>; शाश्रौ.  
 श्वाम् आश्रौ १,६,१ङ्; ३,७,१३ङ्;  
 ४,६,३; शाश्रौ; पा ८,१,२०.  
 √युस् √व्युष् ( विभागे ) टि. द्र.  
 यूक,का<sup>f</sup>- पाठ ३, ४७<sup>g</sup>; पाग ५,  
 २,९७; -के वौश्रौ २७,९ : २.  
 यूक-मत्कुण-पृतीक-लिथ-सानुवाह-  
 कश-जलक-कण्डूपवाहक-  
 -कानाम् सुध ४०.

यूका-रु- पा ५,२,९७.  
 ?यूकभिः<sup>h</sup> अप १,८,८.  
 यूकर- (> यौकरीय- पा.) पाग ४,  
 २,८०.  
 यूति-, यूप- √यु (वधा.) द्र.  
 रयूप- (> यूप-र-, यौध्य- पा.)  
 पाग ४,२,८०<sup>i</sup>.  
 यूथी-, थ्य-, युत्- √यु (वधा.) द्र.  
 यूनर्<sup>j</sup>-> ङ्वूनर्-वन्- -वा जैश्रौ ६ :  
 ५<sup>k</sup>; द्राश्रौ २,३,५; ताश्रौ १,७,५.  
 यूप<sup>l</sup>- पाठ ३,२७; पाग २, ४,३१;  
 ४,२,८०<sup>m</sup>; ५,१,४; -पः आश्रौ  
 ९, ७, १५; १६; १२, ६, ४;  
 शाश्रौ; -पम् शाश्रौ १४, १०,  
 १०; १६, ३, २०; १७, ११; काश्रौ;  
 आपश्रौ ७, ११, ५<sup>n</sup>; -पयोः वौश्रौ;  
 १७, १३ : ९ङ्; -पस्य काश्रौ  
 ६,१,२८; २५, ६, ६; आपश्रौ;  
 -पाः शाश्रौ १६, ३, १; १३, १;  
 काश्रौ; -पात् काठश्रौ ५७; वौश्रौ;  
 -पान् आपश्रौ १४, ५, ६; १४;  
 १९××; वौश्रौ; -पाय आश्रौ ३,  
 १,८; शाश्रौ ५, १५, २; काश्रौ;  
 -पे शाश्रौ १३, ४, १; १६, ११, ३;  
 काश्रौ; -पेन वौश्रौ ६, ३३ : ५;  
 १०; २०, २६ : ४१; वाघ १७,  
 ३५; -पेभ्यः वृदे ४, १०१; -पेषु  
 आपश्रौ २०, २४, ४; वौश्रौ १५,  
 २३ : १३; १६; वाश्रौ ३, ४, ३,  
 २३; हिश्रौ १४, ३, १८; ५१;  
 -पौ वाश्रौ १, ७, ५, २६.  
 यौ(प>)पी- -पी साअ १,  
 ५७; -प्यौ वृदे ४, १००; ऋअ  
 २, १, ३६.

a) वैप १ द्र. । b) पाभे. पृ ११३७ b द्र. । c) पाभे. वैप १, २६११ b द्र. । d) सपा.  
 आपश्रौ १३, २२, १ अस्मान् इति पाभे. । e) तु. पागमः । f) छुद्रजन्तु-विशेष- । g) <√यु ।  
 h) अर्थः ? । <यूकन्- इति ? । i) सकृत् यूप- इति पाका. । j) वैपं २, ३खं. द्र. । k) योनोर्वा इति पाठः ?  
 यनि. शोधः (तु. तां ६, ४, ८) । l) पाभे. पृ १२०७ h द्र. ।

यूप्य- पा ४, २, ८०; -प्यः  
मीत् १२, ७, २७; -प्यस्य वागृ  
६, २१.  
यूप-कर्मन्- मी काश्रौसं २७: ५;  
१५.  
यूपकर्मन्त्व- -त्वात् मीत् ११,  
३, ५.  
यूप-केशिन्<sup>b</sup> -> यूपकेशिन्<sup>b</sup> - शी  
मागृ २, १४, २९५.  
यूप-चित्ति-श्मशान-रजस्वला-सूतिका-  
(का-अ)शुचि- -चीन् वाध ४,  
३८.  
यूप-च्छेदन- -नम् काश्रौ ७, १, २८;  
-ने हिश्रौ १, १, ३८.  
यूप-त्व- -त्वम् वाधूश्रौ ४, १४: ३;  
४; ६४<sup>c</sup>: २.  
यूप-दंष्ट्र- -ष्ट्रः विघ १, ३.  
यूप-दर्शन- -नात् मीत् ८, १, १५.  
यूप-देवता-> च(त्य>)श्या-  
-स्याम् शुभ्र १, ३७१; -त्ये  
शुभ्र १, ३७२.  
यूप-देश- -शम् काश्रौ ९, १०, ७;  
-शात् काश्रौ ४९.  
यूप-द्रव्य- -व्याणि आपश्रौ २४,  
४, १३.  
यूप-प्रमाण- -णानि हिश्रौ ४, १,  
२७.  
यूप-मूल- -लम् काश्रौसं ३२: २०.  
यूप-लक्षण- -णम् चव्यू २: २९.  
यूप-वक्र- -क्राः गौघ १, २७.  
यूप वत् काश्रौ ७, २, ८; ८, ५,  
२७; आपश्रौ ११, ९, ११;  
१०, ३; पाठ.  
यूप-वासम्- -सांसि वैताश्रौ २७, ८.

यूप-विरूढ<sup>d</sup>- -ढानि काश्रौसं  
३२: २०; अप्राय ५, ६.  
यूप-विरूढ<sup>e</sup>- -ढाः काश्रौसं ३२;  
१९.  
यूप-विरोहण- -णे काश्रौ २५, १०,  
१.  
यूपविरोहणीय<sup>f</sup>- -यः वौश्रौ  
२४, १८: १५.  
यूप-वृक्ष- -क्षाः वैश्रौ १०, १:  
११.  
यूप-वेष्टन- -नम् काश्रौ १४, १,  
२०; -नानि काश्रौ १४, ५, ३५.  
यूप-शकल- -लम् काश्रौ ६, ३,  
१५; वौश्रौ ४, ४: ८xx;  
माश्रौ; -लानि माश्रौ २, ५,  
४, ८; -ले वौश्रौ २४, ३५: २;  
-लेन माश्रौ ७, ८, ५; वैश्रौ १०,  
८: १०; हिश्रौ ४, २, ४४; -लौ  
काश्रौ ९, १०, ३; माश्रौ २, ४,  
१, ८.  
यूप-शक्क- -क्कम् वाश्रौ १, ६,  
२, ११.  
यूप-संयोजन<sup>g</sup>- -नानि वौश्रौ २०,  
२६: ४१.  
यूप-सकाश- -शे आपश्रौ ७, १,  
१२.  
यूप-संमान<sup>h</sup>- -नात् आपश्रौ १७,  
२२, ६; वैश्रौ १९, ६: १४३;  
हिश्रौ १२, ६, २७; -नेन हिश्रौ  
४, २, ३६; ७, ८, ३५.  
यूपसंमाना(न-आ)दि- -दि  
वैश्रौ १४, १७: ५.  
यूप-स्तुति- -तिः श्रु २, ३, ८.  
यूप-स्थायिन्- -यी श्रु ५०, ४, ६;

५, ४.  
यूप-स्थूल( ?ण<sup>i</sup> )-स्पर्शन- -ने  
काध २७७: १.  
यूपा(प-अ)शि- -शी काश्रौ ६, ६,  
१५; काश्रौ ५८.  
यूपा(प-अ)प्र- -प्रम् वाश्रौ १, ६,  
३, ८; ९; ३, २, ६, २३; वैश्रौ;  
-त्रे वैश्रौ १०, ८: २; -त्रेण  
वाश्रौ ३, १, १, ८; -त्रैः वौश्रौ  
१५, १४: ८; १९: ७.  
यूपा(प-अ)ङ्ग- -ङ्गम् मीत् ४, ४,  
२३.  
यूपा(प-अ)जन- -नम् आपश्रौ  
२१, २, २; वाश्रौ ३, २, १, २२;  
हिश्रौ १६, १, २३; -ने काश्रौ  
२, ८, ८; हिश्रौ ३, १, २१.  
यूपा(प-आ)दित्वा(त्य-आ)हवनीय-  
निर्मन्थ्य- -न्थ्यान् आश्रौ  
५, ३, १५.  
यूपा(प-अ)न्त- -न्ते काश्रौ ७, १,  
२८; माश्रौ १, ८, १, ६.  
यूपा(प-अ)न्तर- -रे माश्रौ ५, २,  
१२, ११; -रेषु काश्रौ २०, ६, ६.  
यूपा(प-अ)न्तराल- -लानि आपश्रौ  
१४, ५, १७; वाश्रौ ३, २, ६,  
१३; हिश्रौ ९, ८, १२; -लेषु  
आपश्रौ २०, १४, ३; २४, ९.  
यूपा(प-आ)रोहण- -णान् हिश्रौ  
१३, २, ८.  
यूपा(प-अ)र्थ- -र्थम् वीशु ४:  
२२.  
यूपा(प-अ)वट<sup>j</sup>- -टः माश्रौ ५, २,  
१२, ३७; वाश्रौ ३, २, ६, ५९;  
-टम् काश्रौ ६, २, ८; आपश्रौ

a) मलो. कस. । b) =देव-विशेष- ( वैतु. MW. राक्षस-विशेष- इति ) । c) वन. । d) उप.  
=प्ररोह, अश्रु- । e) उप. =अश्रु-इति- । f) नाप. (विधि-) । तदस्यप्रयोजनमित्यर्थे लः प्र. (पा ५, १, १११) ।  
g) नाप. (रज्ज्वादि-) । h) उप. सं √मि (प्रक्षेपे) । i) पाठः ? यति. नोषः (दु. चिन्तामणिः; वैतु. गुरो.  
\*रथम् इति) । j) वै १ द. ।

७, ९, ६; वौश्रौ; -टस्य वौश्रौ  
२०, २ : २४; २६ : १०; वाश्रौ  
१, ६, १, २३; -टाः वौशु ४ :  
१६; २४; -टान् वौश्रौ १७,  
११ : ८; २६, २४ : ४; -टानाम्  
वौश्रौ २६, २४ : २; -टाय वैश्रौ  
१०, ३ : ४; हिश्रौ ४, १, ४१;  
-टे वैश्रौ १०, ८ : ४; हिश्रौ ४,  
२, ४१.

यूपावट-काल- लम् वौश्रौ  
२५, ९ : २.

यूपावट-देश- शम् आपश्रौ  
७, ३, १०; भाश्रौ ७, २, १९;  
१२, ५, २; आपशु ८, १३;  
हिशु ३, १९.

यूपावट-प्रभृति- त्ति माश्रौ २,  
२, ५, ४; ५, २, ४, २२; ११, १७.

यूपावटा( ट-अ )न्त<sup>१</sup>- न्तम्  
वौश्रौ ६, ३१ : २४.

यूपावटीय- यः वौश्रौ ६, २२ :  
८; -यम् वौश्रौ १०, २३ : २४;  
२२, ५ : ९; -यात् वौश्रौ ६,  
२२ : १०; १३; १७; १०, १९ : ६;  
१९, १ : १२; वौशु ४ : ८.

यूपावट्य<sup>२</sup>- व्यः भाश्रौ १२,  
४, १३; -व्यात् काश्रौ १६,  
७, ३१; भाश्रौ १२, ४, १६;  
काशु ६, १०.

यूपा( प-आ )हवनीय- यम् वैश्रौ  
१८, १४ : ३८; -ययोः वैश्रौ  
१०, १८ : १०; -यौ वाश्रौ १,  
६, ६, २८.

यूपा(प-आ)हुति- त्तिः वौश्रौ २४,  
३७ : ७; २६, २३ : १; वाश्रौ  
३, २, ६, ३; मीसू ११, २, २५;  
-तिम् आपश्रौ ७, १, ७; १४,

५, ६; वौश्रौ; -तेः माश्रौ ५,  
२, १२, १; -त्यै वौश्रौ २०,  
२५ : १८; २१, ७ : १४.

यूपाहुति-वत् काश्रौ ६, १०, १०.  
यूपाहुत्य( ति-अ )भयादान-यवा  
वपन- नानि काश्रौ ८, ८, ९.

यूपै(प-ए)कादशिनी- न्ती काश्रौ  
८, ८, ६; २१, १, ४××;  
आपश्रौ २१, १४, ११; माश्रौ;  
-न्याम् काश्रौ ८, ८, ३७.

यूपो(प-उ)त्तरवेदि- न्दी काश्रौसं  
२८ : १६.

यूपो(प-उ)पर- राणि वौशु ४ :  
२४.

यूपो(प-उ)पस्थान- नम् हिश्रौ  
१०, ५, ४६.

यूपो (प-श्रौ)दुम्बरी-द्रोणकलश-  
-शाः वैश्रौ २१, १८ : ३.

यूप्य, प्या- पा ५, १, ४; -प्यम्  
काश्रौसं २७ : १; २८ : २; वौश्रौ  
१८, २० : १; -प्यस्य वौश्रौ  
१८, २० : २; -प्याः आपश्रौ  
७, १, १५; भाश्रौ ७, १, ५;  
माश्रौ; -प्यान् आपश्रौ ७, १,  
१९; हिश्रौ ४, १, १३;  
-प्यायाम् वौश्रौ ११, ३ : ३४.

यूप्यम् युष्मद्- द्र.

यूप्युधि- √युध् द्र.

यूप्युवि- √यु(वधा.) द्र.

√यूप् (वधा.) पाधा. भ्वा. पर.  
हिंसायाम्, योषिटि निघ २,  
१४<sup>१</sup>.

यूप<sup>१</sup>- पाउमो २, ३, १६७; पाग २, ४,  
३१; ४, १, ४१; २, ८०<sup>२</sup>; -षम्  
शाश्रौ ४, १८, १०; माश्रौ १, ८,  
५, २१; आमिष्ट २, ५, ८ : १६;

वौग् २, ७, १८; ११, ३४; -घाणि  
आपश्रौ १९, ९, २; हिश्रौ २३,  
१, ४४; -वे आपश्रौ ७, २४, ९;  
माश्रौ ७, १९, २; ८; वाश्रौ १, ६,  
७, ५; ३, १, २, १४; हिश्रौ ४, ५,  
१०; -वेण आपश्रौ १९, ९, ५;  
माश्रौ १, ८, ५, २०; वाश्रौ;  
गोष्ट ४, १, १२; कौसू ६४,  
२१; -पैः अप ४४, ३, १०;  
शंघ २१८.

यूपी- पा ४, १, ४१.

यूप-पिशित- तानि कौसू ३९,  
१४.

यूपपिशिता(त-अ)र्थ- र्थम् कौसू  
३९, ४.

यूप-र- पा ४, २, ८०.

यूपन्<sup>१</sup>- पा ६, १, ६३; -षन् वौश्रौ ४,  
९ : ६; ९××; -णः आपश्रौ १९,  
१३, १५; वौश्रौ १९, ५ : ११;  
३३; ३४; भाश्रौ; -ण्णा आपश्रौ  
७, २४, १२; वौश्रौ; -णि वैश्रौ  
१०, १९ : ३.

यूपस्<sup>१</sup>- यूः वौश्रौ ४, ८ : ७; ३३.

?यैकैः वाधुश्रौ ४, १००<sup>२</sup> : १२.

येमान- √यच्छ् द्र.

येयजामह<sup>१</sup>- हः शाश्रौ १, १, ३६;  
३९; ४०; २, २; ७, २, १५;  
-हम् आपश्रौ २४, १३, ५; ६;  
हिश्रौ २१, २, ६०; -हात् शाश्रौ  
१, २, १९; आपश्रौ ५, २८, ९;  
माश्रौ ५, २०, २.

येयजामह-वपट्कार- रयोः शाश्रौ  
३, १६, १५.

येवाप<sup>१</sup>- वः अप्रा ३, ४, १<sup>१</sup>.

?यो<sup>१</sup> पाग २, ११, १२.

?योक् पाग १, १, ३७.

a) वस. । b) भवार्थे यत् प्र. । c) धा. गतौ वृत्तिः । d) वैप १ द्र. । e) अर्थः ?  
पृ २०४१ i द्र. । f) पृ १५०५ e द्र. ।

योक्तव्य-<sup>१</sup>, कृ- प्रसृ. √युञ् द.  
 योत्र- √यु(वधा.) द.  
 योत्स्यमान-<sup>२</sup>, योद्घ-प्रसृ. √युष् द.  
 योनि<sup>३</sup>- पाठ ४, ५१; -नयः आपथौ  
 १५, १७, ५१; वौश्रौ; भास् ३,  
 १८; -ना या २, ८१; -निः  
 आथ्रौ ३, १०, ५१; ५, १५,  
 १६; शौश्रौ; आपथौ १२, २,  
 १२; वौश्रौ १४, १९; ३३; ४१;  
 २९; ७; १८, ५०; २९; २९,  
 ७; २; ९; ५; माथ्रौ २, ५, १,  
 ४४; ६, १, १, २८; ७, १; २, ६,  
 ३२; वाधुथ्रौ ३, १२; ७; ३९;  
 ९××; वैथ्रौ १, १; २३; २४;  
 ७; १७; १२, १; २०; छसू १,  
 ११; ७; २, ४; १४; ५; १४;  
 वैताथ्रौ २४, १४<sup>३</sup>; निसू २, १;  
 ९; ३१<sup>३</sup>; ७, ७; ४०; शौघ ५,  
 १, ३; वौषि १, ८; १३; वैग ३,  
 १५; ६; कौग १४, १०; अप  
 २२, ६, १; २३, १, १; ४८, ७५<sup>३</sup>;  
 ८९; शौघ ३३३; गौघ ३, ३<sup>०</sup>;  
 काशु ६, ६<sup>०</sup>; वृदे १, ६२; निघ  
 १, १२<sup>२०</sup>; ३, ४<sup>०</sup>; या २, ८<sup>३</sup>;  
 ४, ३; १४, ११<sup>३</sup>; -निभ्यः आथ्रौ  
 ३, १२, २२; माथ्रौ; -निम्  
 आथ्रौ ३, १०, ६१; ११, ६××; ६,  
 ५, २१; ७, ३, ११; ५, ७; ८,  
 ७, ४; १२, १८; शौश्रौ ४,  
 ११, ६१××; ७, २१, २; १०,  
 ९, १४; ११, १२, २, १३, ३२;  
 १५, ६; १८, २३, १३; आपथ्रौ;  
 वौश्रौ ११, ३; २१; २२, ३;  
 २७; हिथ्रौ २, ४, १२; जैथ्रौ ९;  
 २७; १३; २२; आथ्रौ १, १२,

८; ९; १३, १; २, ९, १४; २०,  
 ३१; आमिष्ट १, ५, ५; १४; १५;  
 वौग १, २, २९; वैग ३, ८; ६;  
 ९; १३; १५; १४; ६; हिग १,  
 १४, ७; २४, ३; जैग १, २२;  
 २५; अप ३०<sup>३</sup>, १, ११;  
 वाध १, ३३; वृदे ८, १४०;  
 अत्र ३, २३; या १४, ६;  
 य.शि २, ६४; -निषु नाग २,  
 १५, ६१; वाध २०, १६;  
 आपध २, २, ७; हिघ २, १, २९;  
 ऋप्रा ८, ६१; -नी आथ्रौ ८,  
 ६, ८; १६; ७, ९; वैताथ्रौ ३३,  
 १०; -नीः आथ्रौ ७, ५, ५; ८, ७,  
 ६; वौश्रौ २४, १५; ९; वाधुथ्रौ;  
 -नेः ऋआपथ्रौ ९, ९, ११××;  
 वौश्रौ ४, १; १५<sup>१</sup>××; १४,  
 २९; ७; २२, ६; ३; माथ्रौ  
 ९, १३, ५; ९; वैथ्रौ १०,  
 १; १३; हिथ्रौ ४, १, १४;  
 १५, ३, ११<sup>३</sup>; छसू १, ४;  
 ३०; ३, ९; १८; वैग ३, १०;  
 २; कौसू; -नी आथ्रौ २, २, ४१;  
 शौश्रौ २, ११, ६××; १०, १२, ४;  
 काथ्रौ; वौश्रौ १४, १९; ३३;  
 वाधुथ्रौ ३, ३९; ११; १२;  
 लाथ्रौ ७, ९, १३; निसू २, ७;  
 १७; आपथ्रौ १, ५, १६; १७;  
 २, ११, २३; आमिष्ट २, ७, ६;  
 ३२; वैग ३, १४; ५; या १४, ६;  
 शौच ४, ५; -न्यः आथ्रौ ७, ३,  
 १३; -न्या निसू २, १; १०<sup>५</sup>;  
 -न्यान् वौश्रौ १४, १९; ४२<sup>१</sup>;  
 अप; आन्वो १२, १०.  
 योनि<sup>४</sup>- नात् वाध १, २२; २७,

९; वौघ २, १, ६२; -नेन वाध  
 १, २१; २०, ४५.  
 योनि-लौव-सौख-<sup>५</sup> -लैः  
 निघ ३५, ५<sup>१</sup>.  
 योनि-कृद्<sup>६</sup>-<sup>७</sup> -कृतः आमिष्ट ३, ८,  
 २; ५७; वौषि १, १५; ६२.  
 योनि-नार्भ-देवता-><sup>८</sup> -न्य-<sup>९</sup> -न्यम्  
 अत्र ५, २५.  
 योनि-नोत्र-मन्त्र-संबन्ध-<sup>१०</sup> -न्धान्  
 आमिष्ट ३, १, १; ३.  
 योनि-नोत्र-मन्त्रा(न्त्र-अ)न्तेवास्य-  
 (सि-अ)संबन्ध-<sup>११</sup> -न्धान् आपध  
 २, १७, ४; हिघ २, ५, ३२.  
 योनि-नोत्र-मन्त्रा(न्त्र-अ)संबन्ध-  
 -न्धान् आपध २१, २; हिग २,  
 १०, २; वौघ २, ८, ६.  
 योनि-नोत्र-धृत-वृत्त-संपन्न-<sup>१२</sup> -ज्ञाः  
 वौश्रौ २, ३; १; -ज्ञान् वौग २,  
 ११, ५.  
 योनि-देवता-><sup>१३</sup> -वत्य-<sup>१४</sup> -न्यम् अत्र  
 ३, २३.  
 योनि-बन्धु-<sup>१५</sup> -न्धुः वैग ६, ३; ११;  
 ७, १; ६; ७; -न्धुनाम् वैग ७,  
 ६; २.  
 योनि-मत्-<sup>१६</sup> -न्तम् वाध ६, ३०.  
 योनि-मात्र-<sup>१७</sup> -त्रात् गौघ १८, ७.  
 योनि-योनि-<sup>१८</sup> -नौ वौघ २, ६, ३३<sup>१</sup>.  
 योनि-वधा(घ-अ)र्थ-<sup>१९</sup> -र्थे निसू ७,  
 १; १९.  
 योनि-वाद्-<sup>२०</sup> -द्ः निसू ५, ९; ८.  
 योनि-विपर्यास-<sup>२१</sup> -से अत्र ७०<sup>३</sup>, १२,  
 ५.  
 योनि-व्यतिकर-<sup>२२</sup> -रः अत्र ७१, ५,  
 १; -रम् अत्र ७१, ७, १; -रे  
 अत्र ७१, १, ३.

a) वैग १ द. । b) = उरति-कारण- । c) = ( अन्तःपात्य-नार्भ-देवता-संबन्ध- ) आमिष्ट- ।  
 d) = उर- । e) = उर- । f) = अन्तरिक्ष- । g) 'न्याम्' इति संस्कृतुः टि. । h) भागर्थे अण् प्र. ।  
 i) 'सौषिः' संबन्धः > 'सौषिःसंबन्धान्' इति जीसं. । j) वैग २, ३ सं. द. ।

योनि-श(स्य>)स्या- स्याः मीस्  
७,२,१७.

योनि-पद<sup>३</sup>- -पदः आमिष्ट १, ५,  
३: ४<sup>१</sup>; हिष्ट १,१९,७.

योनि-सङ्कट-निर्गमन- -नात् विध  
९६,३३.

योनि-संकर- -रम् अप २२, ३, ५.

योनि-संकर-दोष- -पेण कप्र १,  
७,१३.

योनि-संकर-संकीर्ण- -र्णे अप  
२२,४,१.

योनि-संवन्- -न्धाः गौध २०, ६;  
-न्धान् गौध २०, २; -न्धे

आपध १, २१, ८; हिध १, ६,  
३८; गौध १४, १९; -न्धेभ्यः

आमिष्ट ३,७,४: १; वौपि २,३:  
७; आपध २, ११, १६; १५, २;

हिध २,३,३२; ४,३१.

योनि-स्थान- -नम् आशौ ५, १५,  
१८; ८, ६, १८; -ने आशौ ५,  
१५, १७; ७, १२, १४.

योन्व(नि-अ)नुशंसन- -नम् शाशौ  
७,२१,५.

यो(य-उ)पध- प्रष्ट. १य- द्र.  
योपयत्- , यित्वा प्रष्ट. √युप् द्र.

योजुवती- √यु(वधा.) द्र.  
योपणा<sup>३</sup>- -णासु आशौ ३, ८, १;  
-णे या ८, ११.

योपा<sup>३</sup>- पाठ ३, ६२; -कपा वौश्री  
२४, २४: ९; हिश्री; -कपा:

आपश्री १७, १८, १; या ३, ४;  
७, १७; २०; -पाम् शाश्री ८,  
१८, ११; कप्र २, २, ९;

शंघ ४४०; -पायाः कप्र ३,  
५, ११.

योपा(पा-अ)र्थे-> ण्येन्- -र्थी  
अप १, ४४, २.

योपित्<sup>३</sup>- पाठ १, ९७; -पित् कप्र  
२, २, ९; विध २५, १६; -पितः

अप ४८, ७६<sup>१</sup>; ६४, २, ३;  
-पिताम् जैश्रीप ११; कप्र २,  
११, ६; -पिद्भ्यः कप्र २, ७, ११.

योपिद्-आस्य- -स्यम् वैध ३, ४, ६.  
योपिद्-देवता-> ष्वत्- -त्यम्

अस्र १, १७.

?योष्टि- -ष्टिः अप ४८, २१.  
योस्<sup>३</sup>- यो आश्री ३, १०, ८; आपश्री  
५, ४, १; वौश्री; या ४, २१<sup>१</sup>.

यौकरीय- यूकर- द्र.  
यौक्त्युच- , यौक्ताश्व- , यौगन्धर-

यौगिक- , यौजनशक्ति- ,  
यौजनिक- √युज् द्र.

यौट् पाधा. भ्वा. पर. वन्धे.  
यौतिक<sup>३</sup>- (> ष्वत्- पा.) पाग ४, १,  
८०.

यौथकालकि<sup>३</sup>- -किः वौश्रीप ४४:  
४.

यौथपाल<sup>३</sup>-> ष्वा(ल-आ)जपाल-  
-लाः वौश्रीप ४४: ५.

यौथ्य- रयूथ- द्र.  
१-रयौध- प्रष्ट. √युध् द्र.

यौधेय<sup>३</sup>- पाग ४, १, १७६; पा, पाग  
५, ३, ११७.

यौधेयी- पा ४, १, १७६.  
यौधेया(य-आ)दि-प्रतिषेध- -धः

पावा ४, १, १७५.  
यौधेया(य-आ)दि- -दिभ्यः पा ५,  
३, ११७<sup>१</sup>.

यौन- प्रष्ट. योनि- द्र.  
यौपी- , ष्वत्- यूप- द्र.

यौवत- , ण- , णक- युवन्- द्र.  
यौवनाश्व- युवनाश्व- द्र.

यौवराजिक- , राज्य- युवन्- द्र.  
यौष्माक- , णीण- युष्मद्- द्र

र

रू<sup>३</sup>-पिं १, ३; रः पा ८, ३, १४; रि पा  
७, ४, ५१; ८, ३, १४.

रून्- वीः पा ८, २, ७६.  
१र<sup>३</sup>- रः शुप्रा १, ६८; ७७; ऋत ४,  
३, १०; भाशि ११; पा ७, २,  
१००; ८, २, ६९; रम् ऋत ३,  
५, ७; ६, ५; रस्य तैप्रा १, १९;  
पावा ७, २, १००; रात् भाशि  
४; १६; पा ६, ४, २१; ८, २,  
२४; पावा ६, १, ६७; रेण पावा  
१, २, १८<sup>१</sup>.

रपर- -रः शैशि ८७; पा १, १,  
५१; ६, १, १९१.

रपर-त्व- -त्वात् पावा १, १,  
५१.

रपर-प्रतिषेध- -धः पावा १, १,  
५१.

रपर-प्रसङ्ग- -ज्ञात् पावा १, १,  
५०.

रपर-वचन- -नम् पावा १, १,  
५१; ७, १, ९६.

र-प्रकृति<sup>१</sup>- -तिः ऋत ३, ६, ६.  
र-प्रतिषेध- -धः, -धात् पावा ७,  
१, ९६.

र-भावा(व-अ)प्रसिद्धि- -द्धिः  
पावा ७, २, २०.

र-ल- -लाभ्याम् याशि २, १७;  
-लौ शुप्रा ४, १७; ऋत २, ३,  
४; शैशि १११.

a) वैप १ द्र. । b) लुप्तयोकारः निषदः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. हिष्ट.) । c) = नदी- । d) व्यप. ।

e) = आयुधजीविंसघविशेष- । f) ण्दिभ्याम् इति पाका. । g) = १२-, र-गण- ( छन्दो-गण- [पिं.] ) ।

h) = वर्ण-विशेष- । i) तु. पाका. । j) वस. ।

र-लोप- -वे शौच ३, २०.  
 र-वृत्-प्रतिषेध- -धात् पाप्रवा २,  
 ५.  
 र-विधान- -ने पावा ४, १, ७.  
 र-विधि- -धौ पावा १, १, ६३.  
 र-विसर्जनीय-जिह्वामूलीयो (य-उ)  
 पञ्चमानीय- -याः तैप्रा १४, १५.  
 र-श- -शयोः याशि २, १४.  
 र-घ- -पयोः माशि ९, १२<sup>१</sup>;  
 -पाभ्याम् पा ८, ४, १.  
 रप-पूर्व- -र्वः भाशि ६२.  
 र-स्वरित<sup>१</sup>- -न्ताः याशि २, ३२;  
 नाशि २, ३, ४.  
 र-ह- -हयोः माशि ९, १२; याशि  
 २, १४.  
 रह-पूर्व- -र्वम् नाशि २, २, ११.  
 र-ह-य- -याणाम् नाशि २, २, १७.  
 रा(र-अ)देश- -शे पावा ७, २,  
 १००; ८, २, ६९; ३, १.  
 रा(र-अ)न्त-प्रतिषेध- -धः पावा  
 १, १, ५१.  
 रो(र-उ)पधा- -धयोः पा ६, ४,  
 ४७.  
 रो(र-उ)न्त- -न्तसु शुप्रा ४, १.  
 र-र<sup>२</sup>- -रम् ऋत २, ३, ६; रात् ऋत  
 ४, ३, ९; ५, ६, ४; रे ऋत ३,  
 १, ८; ६, ९; ५, ५, १०; रौ ऋत  
 ३, ४, ३.  
 र-सभ्य- -ष्ये ऋत ४, २, ९.  
 र-संधि- -धिः ऋत ५, ५, २.  
 रंरं<sup>३</sup>- -सु निघ ४, ३; या ६, १७४.  
 √रं<sup>४</sup> पाधा. भ्वा. पर. गतौ; चुरा.  
 पर. भाषायाम्, रंहति निघ २,

१४<sup>५</sup>.  
 रंरं<sup>५</sup>- -हिः या १०, २९; -ह्या  
 अप्राय ६, ३<sup>१</sup>; -ह्ये वौश्रौ ४, ९;  
 १८; तैप्रा १६, २३.  
 रंहित- -तस्य कौच ४९, ५.  
 √रक्<sup>६</sup> पाधा. चुरा. उभ. आत्तादने,  
 आत्तादने<sup>६</sup>.  
 रक- ( > राक्य- पा. ) पाग ४, ३,  
 ९२.  
 ररक्त-( > राक्ति- पा. ) पाग ४, १,  
 ९६<sup>१</sup>.  
 र-दरक्त- प्रमृ. √रज् द्र.  
 √रक्ष पाधा. भ्वा. पर. पालने, रक्षते  
 वाधूथौ ३, १७ : २३; अप २,  
 २, २; रक्षति आश्रौ ४, ७, ४<sup>१</sup>;  
 काश्रौ; आपमं २, २०, ३२<sup>१</sup>;  
 रंरक्षतः अप १, ४१, ८; अशां;  
 रक्षन्ति शाश्रौ १२, २, १४<sup>१</sup>××;  
 आपथ्रौ; रक्षसे अश्र १७, १<sup>२</sup>;  
 रंरक्षसि आपथ्रौ १, १४,  
 ६××; हिथ्रौ; रंरक्षथ आपघ  
 २. १३, ६; वौघ २, २,  
 ३६; हिघ २, ३, ६; रंरक्षतु  
 आश्रौ ४, १२, २; वौश्रौ;  
 माश्रौ ३, ५, १५<sup>१</sup>; रक्षतात्  
 शांश्र १, १२, ६<sup>१</sup>; रक्षताम् कौच  
 ५, २<sup>१</sup>; रंरक्षन्ताम् वौश्रौ २७,  
 ६ : १६××; वैश्रौ; रंरक्षन्तु  
 वौश्रौ ३, २८ : २; जैश्र; रंरक्षस्य  
 आपथ्रौ १, १४, ५; १२,  
 २१, १२<sup>१</sup>; काश्रौसं; माश्रौ १,  
 २, २, ३; रंरक्ष, > क्षा  
 झाश्रौ २, १०, ६; ४, १२,

२; शाश्रौ; रक्षतात् शांश्र १,  
 २५, ८<sup>१</sup>; रक्षेयाम् भाश्रौ १,  
 २०, ७<sup>१</sup>; रक्षतम् आश्रौ ४,  
 १२, २<sup>१</sup>; रंरक्षध्वम् काश्रौ २५,  
 १३, २५; आपथ्रौ; रंरक्षत, >  
 ता आपथ्रौ ६, २१, १; वाघ  
 १७, ९; ऋप्रा ८, १५; रक्षेत  
 शंघ १४५; २६२; आज्यो १०,  
 ९; रक्षेत् शाश्रौ १३, २९, २७;  
 काश्रौ २४, ६, ३०; आपथ्रौ;  
 रक्षेद्युः लाश्रौ ९, ९, ९; १०,  
 १७, ४.  
 ररक्ष ऋप्रा ९, ४५<sup>१</sup>; ररक्षुः  
 वाधूथौ ३, ७५<sup>१</sup>.  
 रक्षयेत् ऋप २, १, ४; वाघ १६,  
 ६.  
 रक्ष- -क्षे अप ४८, १४.  
 रक्षण- -णम् गौघ ८, ३; १०, ७;  
 -णात् गौघ १८, १४; -णे अप  
 २, २, ५; १८, ३, ५; ५२,  
 १६, ६.  
 रक्षणा(रा-अ)धिकार- -रात्  
 वाघ ३, २५.  
 रक्षणा(ण-अ)र्थ- -र्थाय शंघ  
 ३९१.  
 रक्षणीय- -यम् शंघ ४४३.  
 रक्षत्- -क्षन् अश्र १९, ४६<sup>१</sup>;  
 -क्षन्तः सु २६, १.  
 रक्षन्ती- -न्ती सु २४, २.  
 रक्षमाण,णा- -णम् वाधूथौ ३, १७:  
 २२; नाश्र २, १५, १<sup>१</sup>; -णा  
 पाश्र ३, ४, १५<sup>१</sup>; -णाः वंताश्रौ  
 २५, ८<sup>१</sup>.

a) पाठः? रशयोः इति शोधः (तु. याशि २, १४) । b) घस. । c) स्वर- इत्यस्याऽन्वयानुसरणम् ।

d) वैप १ द्र. । e) वा ९, ११ परानुष्टः द्र. । f) रंशाय इति पाठः ? ननि. शोधः (तु. श्र ९, ६, ८) ।

g) √रम्, र्त् इत्यन्ये । h) तु. BPG. । i) तु. पाति. । j) पामे. वैप १, १३७३ ह्र. । k) पामे.

वैप २ शुभ्यसु काठ ३५.४<sup>१</sup> टि. द्र. । l) पामे. वैप १, १२२५० द्र. । m) द्र. , रक्षतात् इत्यस्य स्थानं स्यात्.

वा ३५, १७ प्रमृ. क्षभिरक्षगात् इति पामे. । n) पामे. वैप १, २, ६२० h द्र. ।



रक्षस्<sup>१</sup>— पाउवृ ४, १८९; पाग ३, ४, ७४<sup>१</sup>; ५, ३, ११७<sup>०</sup>; ४, ३८; -क्षः ऋश्रौ २, ३, ७५५; शांश्रौ; वौश्रौ १२, ४: १५; १६; सु १२, १; अप ७०, ३२, २४; शुख १, ३८; या ४, १८; उनिस् ७: १०<sup>१</sup>; -क्षसः शांश्रौ १४, ५४, १<sup>१</sup>; आपश्रौ; वाश्रौ १, ६, २, १५; या ४, १८; -क्षसाम् ऋश्रौ ३, ८, ७; ६, ६, ८५५; आपश्रौ; वैश्रौ १, १: २३; जैश्रौ ५: ८; २१: ८; कौश्र १, १५, २; शांश्र १, २३, १; अत्राय ३, २; अप ५३, ४, २; -ऋक्षसे अप ३: ६३; या ४, १८; -क्षांसिआश्रौ ऋश्र ६, ९; १२, ३; १०, ७, ६; शांश्रौ ४, ४, २; १६, २, १७; आपश्रौ; वौश्रौ १३, ३: ८; २३, १: ३२; वाधूश्रौ ४, ८८: १०; जैश्रौ ५: ६; ७; २१: ६; ७; वैताश्रौ ६, ११; आपमं २, १३, ६; आश्र ३, ४, १; कौश्र २, ५, १; शांश्र ४, ९, ३; आश्रि २, ५, ९: १३; वौषि २, ९, ११; वैश्र ४, ४: २१; जैश्र २, ६: १०; कप्र १, १०, १३; २, २, २; अप २, २, ४; ६७, ३, ३; शंघ ४६२; विध ९३, १२; वृदे ८, ११५; या ३, ८; १०, ११; माशि ८; १११; -क्षोभिः अप ७०<sup>३</sup>, १५, ४; -क्षोभ्यः आपश्रौ १८, ९, १४; माश्रौ ५, १, ७, ३८; हिश्रौ १३, ३, ३७; जैश्रौ १०: ६; आश्र; अप २०, ७, ३; ३३, ७, ४.

राक्षस, सा<sup>१</sup>— पा ५, ३, ११७; ४, ३८; -सः आश्र १, ६, १; वैश्र ३, १: २; १०; आपध २, १२, २; वौध १, ११, ८<sup>१</sup>; विध २४, १८; २५<sup>१</sup>; हिध २, ४, ३७; गौध ४, १२; -सम् काश्रौ १, १०, १४; कौश्र १, ६, ७; शांश्र १, १०, ९; कप्र ३, ८, ४; शुअ १, ५२; १४३; -सा अध २७, १, ४; -साः वौश्रौ २४, २७: १२<sup>१</sup>; अप २८, १, ४; ३३, ७, ५; -सात् वैश्र ६, १२: १०; -सान् कौश्र १०६, ७<sup>१</sup>; अप ७१, ७, ५; शंघ ११६: २१; -से वैश्र ६ १२: १०; शुअ १, ३३; ६०.

राक्षसी-सीभ्यः याशि २, १०१; नाशि २, ८, २५.

राक्षस-त्वं-त्वम् अप २२, ५, १.

राक्षस-पैशाच-चौ वैश्र ६, १२: १३.

रक्ष-पतङ्ग<sup>०</sup>-ङ्गैः अप ७०<sup>३</sup>, १५, ३.

रक्ष-पन्नग-यक्ष-क्षेपु अप ७१, १७, १०.

रक्ष-पिण्या(त्र्य-अ) भिचार<sup>१</sup>-रे जैश्रौका १०६.

रक्ष-पिशाच-चाः वौध १, ११, ३७.

रक्ष(स्य >) स्या-पा ४, ४, १२१; -स्या वौश्रौ १३, ३४: ५<sup>१</sup>.

रक्षो-नाण-णाः द्राश्र १, ५, ३३<sup>१</sup>.

रक्षो-घ्न-घ्नम् अप १८, १,

१४; शुअ १, ३४; ३२६; -ज्ञानि विध ७२, १६; शुअ १, ५९१; -ज्ञैः कौश्र १२६, ९; अप ६, १, ९.

रक्षो-जन-नेभ्यः वाश्र १७, ११; गोश्र १, ४, ११; कप्र २, ४, १.

रक्षो-देवजन-नेभ्यः वौश्र २, ८, १७<sup>१</sup>.

रक्षो-देव(ता >) त<sup>१</sup>-तः हिश्रौ १५, ४, २५<sup>१</sup>.

रक्षो-देवता-ताभ्यः वाध २३, ३<sup>१</sup>.

रक्षोदेवत्य, स्या-त्यः आपश्रौ ९, १५, ४<sup>१</sup>; -त्या कौश्र ४, १२.

रक्षो-दैवत<sup>१</sup>-तः वौध २, १, ३१<sup>१</sup>; -तम् वाध २३, १.

रक्षो(क्षस्-अ) धिपति-तिभ्यः अशां २४, ६<sup>१</sup>.

रक्षो(जस्-अ) पहनन-नाय वौश्रौ २०, २: १६<sup>१</sup>.

रक्षो-भृत-तेन वृदे ६, ३४.

रक्षो-मुख-पाग २, ४, ६३.

रक्षो-यक्षा(क्ष-आ)दि-सत्त्व-त्वानाम् अप ६४, ९, ९.

रक्षो-राज-जेन आपमं २, १३, ११; आश्रि १२.

रक्षो-रूप-पाणि अप ७०<sup>३</sup>, १५, ३.

रक्षो-विद्या-द्या, -द्याम् शांश्रौ १६, २, १८.

रक्षो(क्षस्-अ)सुर-(>राक्षोसुर-पा.) पाग ५, २, ६१.

रक्षो-हण-(>णक-पा.) पाग ५, २, ६२.

a) वप्रा. । वैप १ निर्दिष्टानां समावेशः द्र. । b) रजस- इति पाका. । c) = आयुधजीविसंघविशेष- । d) विप., नाप. (रक्षस्, विवाह-भेद-). अण् प्र. । e) कस. । f) [तादाख्य-मन्त्राणाम्] समाहारे द्रस. (वृ. काश्रौ १, १०, १४) । g) वस. । h) सपा. °देवतः <> °देवत्यः <> °दैवतः इति पाभे. ।

रक्षोहणा(रा-आ)दि- दि  
 वृदे ७, १४२.  
 रक्षो-हृच्- -ञः आपश्चौ १२,  
 २, १५<sup>३</sup>कं; माश्चौ; -ञ्चे आपश्चौ  
 १८, ९, १२कं; १९, १८, १४;  
 वौश्चौ १३, ३:७; १०; २३, १:  
 २२; माश्चौ ५, १, ७, ३८;  
 हिश्चौ २२, २, १०; -हणः  
 ऋश्चौ ८, ५, १९; २१<sup>३</sup>; आपश्चौ;  
 -हणम् आपश्चौ ९, ८, ८कं××;  
 वौश्चौ; अपश्चौ ७, ३; -हणा  
 काठश्चौ ९६कं; -हणी शुभ्र  
 १, ३९६; -हणौ काश्चौ ८, ५,  
 २२<sup>३</sup>कं; आपश्चौ; -हा ऋश्चौ  
 १२, २, १५; १६, ६, ७<sup>३</sup>; वाघुश्चौ;  
 हिश्चौ ७, ६, ३३<sup>३</sup>; ३५<sup>३</sup>; जैश्चौ  
 ५: ६; २१: ७; वृदे ६, १३४;  
 ऋभ्र २, १०, १६२<sup>३</sup>; ऋभ्र २०,  
 ९६<sup>३</sup>.

रक्षोष्ठी- ष्ठी माश्चौ २,  
 २, ३, ३६; ३७; -ष्ठीः आपश्चौ  
 १६, ३३, १; १९, १८, १६९<sup>३</sup>;  
 वैश्चौ १८, १६: ५९.

रक्षोष्ठा- ष्ठा माश्चौ  
 २२, ३: १२; जैश्चौका ६९<sup>३</sup>; ऋभ्र  
 २, ४, ४: ७, १०४; १०, ८७;  
 ११८; वृदे ६, २८; वाघ्र ४१:  
 ४; -ष्ठा<sup>३</sup> शुभ्र २, १४४<sup>३</sup>;  
 -ष्ठाणि जैश्चौ २५: ३; वौश्चौ  
 २, ११, ४०<sup>३</sup>; वौश्चौ २, ८, ५६;  
 -ष्ठाणि वौश्चौ १०, १४: ३; वैश्चौ  
 १८, ७: १९.

रक्षोष्ठी- ष्ठी माश्चौ  
 १, २४; -ष्ठीः आपश्चौ ७, १३, ४;  
 -ष्ठीषु निष् ३, १२: ३९; -प्रयः  
 चाभ्र १६: २१.

रक्षोष्ठा(ष्ठा-आ)नेय-  
 -यन् वृदे ८, ४०; ६५.

रक्षा- पाग ६, २, ८५<sup>३</sup>; -क्षा अप  
 ७०<sup>३</sup>, १५, ३; आपश्चौ १, १८, १;  
 हिष्चौ १, ५, ७१; -क्षाम् सु २०,  
 १; २७, १; आपश्चौ २, ३, ५:  
 २३; २७; अपश्चौ; -क्षायै वाश्चौ  
 १, २, ४, ३०; वाघ्र १४, १२.

रक्षा-वन्धन- -नम् अप १८<sup>३</sup>,  
 १६, १.

रक्षा-सूत्र- -त्रे अप १८<sup>३</sup>, १, ६.

रक्षित- -त्ते वाघ्र १२, १३.

रक्षित-वत्- -वन्तौ आपश्चौ २,  
 १०, ५; माश्चौ ५, १, १, २८; ५,  
 ३९; ६०.

रक्षितवै वाघुश्चौ २, २०: ८.

रक्षितच्य- -च्यः वैश्चौ २, ८: ९;  
 -च्यन् वा ४, १८.

रक्षितृ- -त्ता ऋश्चौ २, १७, १४-  
 १९; अपश्चौ २, २, ३; अशां १९,  
 ६; वा ११, ५कं; -ऋश्चौ वौश्चौ  
 १, ३, ३५; वा ४, १९; -तारम्  
 वा ११, ५; -तारौ हिप्ति १८:  
 ७कं.

रक्षित्वा ताश्चौ ९, ९, ५.

रक्षित्- -क्षिणः आपश्चौ १०, ६, ७;  
 काश्चौ २०, २, ११.

रक्ष्य,क्ष्या- -क्ष्यम् आपश्चौ २, २६,

६; हिष्चौ २, ५, २०१; गौष्चौ १०,  
 ३६; ४५; -क्ष्ये आपश्चौ २, २६,  
 २३; हिष्चौ २, ५, २१८.

रक्ष्यन्तम्- -न्ताः वौष्चौ २, २, ५५.

रक्ष्, रक्षण- प्रन्त्. ✓रक्ष् द्र.

✓रक्ष्, रक्ष् पाधा. भ्वा.पर.गती.

✓रक्ष् पाधा.भ्वा.पर.शङ्कायाम्.

रक्षु- पाठभौ २, १, ३२.

रक्षीयन्- -यांसः तैश्चौ १६, १३कं.

रक्षु-नन्त्यु- -नन्त्यवः शाश्चौ ११,  
 १२, १३.

रक्षु-न्यद्- -न्यद्: आपश्चौ ५, ५,  
 १९<sup>३</sup>; आपश्चौ १३, ७, १६<sup>३</sup>;  
 वैश्चौ १६, ८: ८<sup>३</sup>; हिष्चौ १०,  
 ५, १<sup>३</sup>; अपश्चौ ३२, १, ७.

रक्षु- पाठभौ २, २, ३१.

रक्षु- पाठभौ २, १, ३८; पाग ४, २,  
 १३३<sup>३</sup>; १३४.

रक्षु- पा ४, २, १००; १३३.

रक्षु- पा ४, २, १३४.

रक्षु-वाय(रा)गी- पा ४, २, १००.

रक्षु-रक्षु- ✓रक्ष् द्र.

✓रक्षु पाधा.भ्वा.आत्म. गती; चुरा.  
 टम. नापायाम्.

✓रक्षु पाधा. चुरा. टम. प्रतिपत्ते,  
 रक्षयति वैश्चौ २०, २९: ७.

रक्षु- -न्ताः मीष्चौ १, १, २४<sup>३</sup>.

रक्षु-वायम् वाघुश्चौ ३, ८१: ६.

रक्षित- (>रक्षित->रक्षित-]  
 पा. वक्र.) पाग ४, १, १०४; १००

✓रक्ष्, रक्ष् ( वधा. ) पाधा. भ्वा.,  
 दिवा. टम. रामे, रक्षित्

a) वष १ द्र. । b) पामे. वष १, २६२३ ० द्र. । c) हृच् इति पाठः? यदि. शोधः (हु. काठ २,  
 ११) । d) ववर. (रक्षि-). e) परत्तरं पमि. । f) <रक्षो-ञ- इति भाष. । g) =मान-विशेष- ।  
 h) विर. (रक्ष्-). i) रक्ष- इति पाठा. । j) =कर्म-विशेष- । k) 'पन्' इति पाठः? यदि. शोधः (हु.  
 का १, ८५, ६ आत्म. व). l) 'पन्तः' इति पाठः? यदि. शोधः (हु. सप्र. शौ ३, ७, १) । m) =देग-विशेष- ।  
 n) अयवनाः इति जी. प्रयासः । o) रक्षा- (रक्षना-)>-जायाम् इति शोधः (वै. C. अरवायम् इति) ।  
 p) वा ४, १९ पा, पाधा ६, ४, २४ परासुटः द्र. । q) धा. गती वृत्तिः ।

अप ४८, ११६; निघ २, १४.  
 अरज्यत अत्र १५, ८१.  
 रञ्जन्ति शैशि २३०; याशि २,  
 ७७.  
 रज्यते याशि २, ७२; ७३;  
 नाशि २, ४, ५; ६.  
 रजयति निघ ३, १४<sup>क</sup>.  
 रञ्जयति निघ ३, १४<sup>क</sup>;  
 रञ्जयेत् शैशि २२३; याशि २,  
 ७५.  
 रक्त- -क्तम् पा ४, २, १.  
 रक्ता(क्त-आ)दि- -दीनाम् पावा  
 ४, २, १.  
 रक्त,क्ता<sup>ब</sup>- -क्तः अप २९, २, ४;  
 याशि २, १; -क्तम् कौट १,  
 ७, १; शां १, ११, ३; आमिगृ २,  
 -क्ता अप २१, ६; २; -क्ताः  
 अप ५८, १, ८; ९; -क्तानि  
 आगृ १, १९, ११; वौट १, ८,  
 ११; अप; -क्ताम् जैगृ २, ९;  
 ३२; -क्ते अप ३, ३, २; ५०,  
 ५, ६; ६३, ४, ५; -क्तै अप  
 ३५, १, १; -क्तौ आमिगृ २, ५,  
 १ : ९; जैगृ २, ९ : ४.  
 रक्त-कङ्कण- -णम् कौट १, २०,  
 ७.  
 रक्तकण्ठगत- -ते अप ६८, ५, ४.  
 रक्त-कुसुम- -मैः अप १२, १, ५.  
 रक्त-कृष्ण- -ष्णम् कौट १, ८,  
 ८; शां १, १२, ८.  
 रक्त-चन्द्रन- -नेन आमिगृ २,  
 ४, ११ : १८.  
 रक्त-दत्<sup>द</sup>- -दन् आपध १,  
 ७, ११; हिध १, २, ६८.

रक्त-धेनु- -नुम् वैगृ ४, १४ :  
 ११.  
 रक्त-निर्णिक- -के गौध ७, १०.  
 रक्त-पाण्डुर-मेचक- -कान् अप  
 ६३, १, २.  
 रक्त-पाद<sup>०</sup>ग<sup>०</sup>- -दान् शंघ ४२६.  
 रक्त-पाद-तुण्ड<sup>०</sup>- -ण्डाः गौध  
 १७, २७.  
 रक्त-पीत-शुक्ल-कृष्ण-नील-हरि-  
 त-चित्र-वासस्- -सांसि मागृ  
 २, १४, २८.  
 रक्त-पीता(त-अ)स्(रा>)णा<sup>१</sup>-  
 -णाम् अप ६४, ९, ४.  
 रक्त-पीता(त-अ)सित- -तैः  
 अप ६४, २, ८.  
 रक्त-पुष्प- -ष्पेण आमिगृ २,  
 ४, ११ : १८.  
 रक्त-भौम<sup>०</sup>ह- -मम् शंघ  
 ११६ : ३.  
 रक्त-वर्ण,र्णा<sup>०</sup>- -र्णः आमिगृ २,  
 ४; ११ : १८; १२:७; -र्णा अप  
 ३४, १, ५; -र्णानि शंघ १९७.  
 रक्त-वर्मिका-दर्शन- -ने काध  
 २७६ : ७.  
 रक्त-वस्त्र-><sup>०</sup>स्त्र-रङ्ग-रत्न-गन्ध-  
 गुह-मधु-रसो (स-ऊ)र्णा-विक्र-  
 यिन्- -यी विध ५४, २०.  
 रक्तवस्त्रा (स्त्र-आ)वृत्-  
 -तैः अप ७०<sup>३</sup>, ७, १६; ७१,  
 ११, ४.  
 रक्त-वासस्- -सांसि विध  
 ४४, ३७.  
 रक्तवास(स>)सा<sup>१</sup>- -से  
 अप ३५, १, १.

रक्त-वासस्<sup>०</sup>- साः अप ३१,  
 ९, ३.  
 रक्त-शालि-सहस्र- -स्रेण अप  
 १, ४३, ६.  
 रक्त-सूत्र- -त्रम् कौट १, २०, ७.  
 रक्ता(क्त-अ)क्ष<sup>०</sup>- -क्षाः अप  
 २०, ६, ३.  
 रक्ता(क्त-अ)र्का(र्क-अ)स्तमनो-  
 (न-उ)दय<sup>१</sup>- -याः अप ६४, ९,  
 १.  
 रक्ता(क्त-अ)सिता(त-अ)तिरक्त-  
 श्याम-पीत-सिता (त-अ)सित-  
 कृष्ण-धूम्र-वर्णा<sup>१</sup>- -र्णाः वैगृ  
 ४, १३ : ४.  
 रक्ता (क्त-आ) स्य-नेत्र-पाणि-  
 पाद- -दम् वैगृ ४, ११ : ३.  
 रक्तो(क्त-उ)ष्णोप-><sup>०</sup>पिन्-  
 -पी अप ३१, ९, ३.  
 रक्त<sup>क</sup>- -क्तम् अप ७०<sup>२</sup>, ७, २४;  
 ७०<sup>१</sup>, ८, ५; -क्ते अप ७०<sup>२</sup>, ८, ३.  
 परक्त<sup>१</sup>- -क्तः ऋप्रा १, ७५; १३,  
 २०; ऋत ३, ६, ४; -क्तम् ऋप्रा  
 १४, ५१; माशि १०, ७; ८; नाशि  
 २, ४, ५; -क्ताः ऋप्रा ६, १९;  
 -क्तात् ऋप्रा १४, ३२; ५३;  
 ५७; -क्तैः ऋप्रा १४, ५६.  
 रक्त-पर<sup>०</sup>- -रात् ऋप्रा १४,  
 ३४.  
 रक्त-संज्ञा(>)ज्ञ<sup>०</sup>- -ज्ञः ऋप्रा  
 १, ३६.  
 रक्त-संहित- -तम् ऋप्रा ११, १०.  
 रक्त<sup>म</sup>- -क्तम् नाशि १, ३, १<sup>क</sup>.  
 रक्त<sup>१</sup>- -क्तः माशि १०, १०; याशि  
 २, १; ७०-७३; ७४; नाशि २,

a) धा. अर्चयां वृत्तिः । b) = लोहित-वर्ण- वा तद्वत्- वा । c) वस. । d) = कपोत- ।  
 e) वस. > दस. । f) विप. (सन्ध्या-) । g) = पाताल-विशेष- । h) अत्र प्र. उंसं. (पा ५, २, १२७) ।  
 i) कस. > पस. > दस. । j) दस. > वस. । k) = दधिर- । l) = अनुनासिक- । m) = गानगुण-  
 वृत्तिविशेष- ।

४, ७-९; -ङ्गम् शैशि १५;  
२२६; याशि २, ७६; ७७; -ङ्गाः  
शैशि २००; २२९; पाशि १९;  
माशि १०, ९; याशि २, ७८;  
-ङ्गे याशि १, ६४; २, ६९;  
-ङ्गेण याशि २, ९०.

२२३<sup>b</sup>->रङ्गा(ङ्ग-अ)वतरण- गम्  
विध १६, ८.

रङ्गा(ङ्ग-अ)वतार<sup>b</sup>- -रे वीध २,  
२, ५६९.

रङ्गा(ङ्ग-अ)वतारिन्- -रिणः शंघ  
४३४.

रङ्गो(ङ्ग-उ)पजीवन- -नम् वीध  
२, १, ४४.

रङ्गो(ङ्ग-उ)पजीविन्- -विनाम्  
शंघ २६२.

रज्ज- पाठ २, ३२; पावा ३, १,  
१४५; ६, ४, २४; -कः विध  
४५, २२; वैध ३, १५, १०;  
-कत्य शंघ ४३४.

रजत, ता<sup>d</sup>- पाठ ३, १११; पाग २,  
४, ३१; ४, ३, १५४; -तः  
आपथ्रौ २२, ५, ५; वाधूथ्रौ ३,  
७६ : २५; लाथ्रौ ८, ६, १७;  
-तम् आथ्रौ ३, १२, १७; शीथ्रौ;  
-तस्य शंघ ३९५; -ताः वाधूथ्रौ  
३, ७६ : २९; ३३; ३४; -वाक्  
वाधूथ्रौ ४, ५९<sup>e</sup> : ११; -तान्  
वीथ्रौ १५, १५ : ४; वाथ्रौ ३,  
४, ३, ४७; वाधूथ्रौ ३, ७६ : २४;  
-तानि वीथ्रौ १५, ३ : १; १८,  
३७ : ३; वाधूथ्रौ ३, ७६ : २३;  
अप ६८, ५, १२; -ताभिः वाथ्रौ  
३, ४, ४, १७; -तानाम् आथ्रौ  
२, ३, १५; आपथ्रौ ६, ९, ४;

वीथ्रौ ३, ६ : १; हिथ्रौ ३, ७,  
६१; -ते शंघ २०७; -तेन  
वीथ्रौ १५, ३१ : १४; कप्र २,  
८, ३; अप १८, ३, १; शंघ  
१८३; -तैः वीथ्रौ १५, २८ :  
१४; ३० : २७; ३३ : ३.

राजत, ता- पा ४, ३, १५४;  
-तः शाथ्रौ १४, ३२, ६; काथ्रौ  
२०, २, ६; २२, ४, १८; हिथ्रौ  
१७, २, ३३; लाथ्रौ ९, २, १३;  
-तम् काथ्रौ १९, ४, १०; आपथ्रौ  
१५, ७, ३; ११, २; १८, १७,  
१२<sup>f</sup>; २०, २, ५; वीथ्रौ; -ताः  
वीथ्रौ २२, १९ : ११×४; हिथ्रौ  
१४, ३, २२; -तान् आपथ्रौ  
२०, १५, १०; वीथ्रौ २, १२ :  
७×४; हिथ्रौ १४, ३, २२;  
-तानाम् वीथ्रौ १५, १५ : ६;  
-तानि वीथ्रौ १५, १५ : १३;  
१६; २१, २ : १३; विध ७२, १५;  
-ताभिः वीथ्रौ १५, ३० : १६;  
-तेन काथ्रौ २०, ५, २; आपथ्रौ  
२०, १३, २; वैथ्रौ; वैथ्र ३, २१ :  
१३; शंघ ११६ : ७१; ११७;  
-तैः अप २७, १, २; -तौ आथ्रौ  
९, ४, १३; अप ३९, १, १०.

राजती- -तीभिः  
आपथ्रौ २०, १८, ७; हिथ्रौ १४,  
४, १७.

राजत-मणि- -णिम्  
हिथ्रौ १३, ६, ११९.

राजत-सुवर्ण- -र्णो भाथ्रौ  
१३, ११, १५.

राजत-सुवर्ण-सीसा<sup>f</sup>-  
-साभिः काथ्रौ २०, ७, २.

रजत-कर<sup>g</sup>- -रम् विध ९, ७.  
रजत-काञ्चन- -ने वृदे ७, ७८.  
रजत-क्षत-सप्रभ- -भम् अप  
६४, ५, ८.

रजत-ना( भं >)भा<sup>h</sup>- -भाम्  
आपथ्रौ ६, ९, ४; हिथ्रौ ३, ७, ६१.  
रजत-ग्रन्थि<sup>h</sup>- -न्थि वाधूथ्रौ ३,  
७६ : २६; -न्थीन् वीथ्रौ १५,  
१५ : ११.

रजत-जातरूप- -पे द्राथ्रौ २, २,  
२६; लाथ्रौ १, ६, २४.

रजत-स्वरु<sup>h</sup>- -रवः वाधूथ्रौ ३,  
७६ : २८; -रुन् वीथ्रौ १५,  
१५ : ४.

रजत-दण्ड<sup>h</sup>- -ण्डानि वीथ्रौ  
१५, १५ : १५.

रजत-धारण- -णम् काथ्रौ २५,  
३, २०.

रजत-नाभि<sup>h</sup>- -भिः अथ्र ८,  
१०<sup>f</sup>; -भी तैप्रा ४, १२.

रजत-निर्वाध<sup>h</sup>- -धानि वाधूथ्रौ  
३, ७६ : २३.

रजत-पिपीलिका- -कानाम् कौत्  
११६, ३<sup>f</sup>.

रजत-मय- -येषु विध ७३, १३.

रजत-रा(स्ता >)स्र<sup>h</sup>- -स्तान्  
वीथ्रौ १५, १५ : १४; वाधूथ्रौ  
३, ७६ : २४.

रजत-शट्कु<sup>h</sup>- -ष्ट्कानि वीथ्रौ  
१५, १५ : १२.

रजत-शतमान- -नम् काथ्रौ  
२६, २, ३९.

रजत-श(म्या >)म्य<sup>h</sup>- -म्यः  
वाधूथ्रौ ३, ७६ : २५.

रजत-सुवर्ण- -र्णो आपथ्रौ १५,

a) = रज-मन्- । b) = रजावतारदार- [पण्यथ्रौ] । c) सप्र. मनुः [८, ३६३] क्षामोपजीविषु इति पाने. । d) वैप ३ इ. । e) स्या. राजतम् <> राजतमणिम् इति पागे. । f) रज इति चीमं. । g) षय. उप. = २कर- । h) षय. ।

५,१५; मात्रौ ११,५,१९; हिश्रौ २४,२,६.  
 रजन<sup>१</sup>- पाठ २, ७९; पाग ४,१, ४१; पावा ६, ४, २४.  
 रजनी (वप्रा.)- पाठमो २, २, १८८<sup>b</sup>; पा ४, १, ४१<sup>b</sup>; -नीम् माय २, १३, ६१<sup>b</sup>; नाशि १, २, १३<sup>d</sup>.  
 रजनि<sup>०</sup>- पाठमो २, १, २१२.  
 रजनिकर->र-दिवाकर- रौ अप ६८, ३, १०.  
 रजस्<sup>१</sup>- पाठ ४, २१७; पा ५, ४, ५१; पाग ३, ४, ७४<sup>b</sup>; पावा ६, ४, २४; -जः आश्रौ ४, ६, ३; वौश्रौ ६, २: ८; ३: ७; २९, १३: १२; माश्रौ; ऋअप ४८, ७४<sup>b</sup>; वाध ४, २३<sup>b</sup>xx; आपध १, १९, ६<sup>१</sup>; बौध ३, ४, ४<sup>१</sup>; ४, ८, ७<sup>१</sup>; हिध १, ५, १०८<sup>१</sup>; ऋनिध १, ७<sup>०</sup>; या ४, १९<sup>१</sup>क<sup>१</sup>; ९, २९<sup>१</sup>क<sup>१</sup>; १२, २३<sup>१</sup>क<sup>१</sup>; -जलः आश्रौ १, ११, ८<sup>१</sup>xx; २, १३, ७<sup>१</sup>; ८, ११, १<sup>१</sup>; आपश्रौ ९, १७, ६<sup>१</sup>m; १६, १५, ७<sup>१</sup>m; १६, १<sup>१</sup>xx; १९, २७, १०<sup>१</sup>; वौश्रौ; ऋमाश्रौ १, ६, ४, २१<sup>m</sup>; या १२, ७<sup>१</sup>क<sup>१</sup>xx; -जसा वौश्रौ १९, ७: ३३<sup>१</sup>; वैश्र २, २: १५<sup>१</sup>; अप ६४, ६, ९<sup>m</sup>; ७०<sup>१</sup>, ११, ८; वाध ३, ५८<sup>१</sup>; वौध ३, ४, ४<sup>१</sup>; विध; -जसि हिश्रौ १३, २, २१; आपमं २,

११, २३; वैश्र ६, १२: ३<sup>m</sup>; १३: ३; अप्राय; -ऋजसी<sup>०</sup> वौश्रौ १८, १०: २१; अप ४८, ६०; निध ३, ३०; या २, २१; ४, १९<sup>६</sup>; -जसे बौध ३, ४, ४<sup>१</sup>; -जस्तु या १०, ४४<sup>१</sup>; -जःसु ऋपा ५, १७<sup>१</sup>; -जांसि ऋश्रौ २, ११, ८; ४, १५, २xx; शाश्रौ; वृदे २, ६४; या ४, १९<sup>२</sup>; ऋ; क<sup>१</sup>.  
 राजसी- स्ती अप ३०, १, १०.  
 रज-उद्वा( स>)सा<sup>p</sup>-सायाः कौसू ३५, २.  
 रजः-कणी<sup>p</sup>- पाग ८, ३, ४८.  
 रजः-प्रासि- सौ वैश्र ६, १३: १.  
 रजः-श( य>)या<sup>f</sup>- -याम् काश्रौ ८, २, ३६.  
 रजस्-तम->मा(म-आ) ध्रित- -तम् अप ६४, ३, ८.  
 रजस्-तमस्- -मसी या १४, ३.  
 रजस्-वत्->वद्-वासस्<sup>f</sup>- -ससा वाय ९, १९<sup>b</sup>.  
 रजस्-वल,लां- पा ५, २, ११२; -लः सु १६, ५; आपध १, ७, ११<sup>१</sup>; हिध १, २, ६८<sup>१</sup>; -लम् विध ९६, ५३; -लया वौश्रौ २७, ९: ५; गोग ३, ५, ५; द्राय ३, १, ३४; वाध १२, ६; -ला वौग ४, १, १०; वाध ५, ६; शंघ ८३; विध २२, ७२; ७३; -लाः<sup>f</sup> कप्र १, १०, ५; -लाम् शाश्रौ २, १२, १०; वाध; -लायाः

वाध ५, ८<sup>१</sup>; विध ३६, १; ७.  
 रजस्वल-तम- -मैः या ८, १९.  
 रजस्वला-कृष्णशकुनि-पदो- (द-उ)पहत- -तम् गौध १७, १०.  
 रजस्वला-गमन- -ने आश्रिग्रा २, ७, ४: ३<sup>m</sup>.  
 रजस्वला-चाण्डाल-यूप- -पान् विध २२, ६९.  
 रजस्वला( ला-अ)भिगमन- -ने वौग ४, ११, १<sup>m</sup>.  
 रजस्वला(ला-अ)वधूता(ता-आ)दि- -गमन- -ने शंघ ४०२.  
 रजस्वला-पण्ड-स्पर्शन- -ने काध २७६: १२.  
 रजस्वला-सहो( ह-उ) पपति-वैश्मन्- -श्मनाम् विध ५१, १६.  
 रजः-सुवासि( न्>)नी- -न्या माय १, ३, १९.  
 रजा-शय,या<sup>f</sup>- -यम् वाधश्रौ ४, ५९<sup>२</sup>: १०; -ऋया मात्रौ २, २, १, ३९; वैश्रौ; -याम् आपश्रौ ११, ४, ५; वौश्रौ ६, २२: ३; मात्रौ १२, ४, ८; ५, १३.  
 रजो-दोष- -पः कप्र १, १०, ७.  
 रजो-निर्णजक- -कः वैध ३, १५, १०.  
 रजो-नीहार-धूमा(म-अ)अ-वृक्षा-ग्रा(ग्र-अ)न्तरित- -ते कप्र १, ९, ४.  
 रजो-रोगा(ग-आ)दि- -दिना

a) = रजक-द्रव्य- । b) = हरिद्रा- । c) = देवी-विशेष- । d) = मूर्च्छना-विशेष- । e) = रात्रि- । f) वैप १ द्र. । g) पृ २०४७ b द्र. । h) = अर्तव- । i) = पातक- । j) = रजोगुण- । k) = ज्योतिस्-, उदक- । l) = उदक- । m) = धूम- । n) पभि. वैप १, १६२५ i द्र. । o) = यात्रापृथिवी- । p) नाप. ( [उत्सृष्टमलवासस्-] क्षी- ) । तृस. > वस. समासान्तः डच् प्र. ( पा ५, ४, ७३ ) । q) तु. पागम. । r) वस. । s) सपा. रजस्ववद्वा<>रजोवा इति पभि. । t) विप. ( नदी- ) । u) परस्परं पभि.

कप्र २,९,२३.

रजो(जस्-ञ)कंपरिधा(घा-ञ्चा)

दि-द्वयः अत्र ६४,७,८.

रजो-वर्षम् अत्र ७२,३,४.

रजो-वासस्<sup>१</sup>-ससा काश्र ३,  
१५<sup>०</sup>.

रजो-हरण-गम् कौसू १३,११.

रक्षन्-नेन सुघष ८८:९.

रक्षित-न्तम् याशि २,९०.

१राग<sup>०</sup>-पाग ५,२,३६.

राग-द्वेष-पात् जैश्र १,१७:४.

राग-द्वेष-पात् सुघष ८५:५.

रागद्वेषा(प-ञ्च)गिन-द्रग्ध-  
ग्धानाम् शंघ ४.

रागा(ग-ञ्च)न्ध-न्धत्य विघ  
२६,५.

रागित-पा ५,२,३६.

२राग<sup>०</sup>-पाग ४,१,४५;-गात् पा ४,

२,१;-गान् आपथ १,२०,१२;

३०,१०; हिघ १,६,२६;८,१०.

रागी-पा ४,१,४५.

राग-खाण्डव<sup>०</sup>-> च-सुक्र-दधि-

गुढ-गोधूमयवपिष्टविकार-

-रेभ्यः शंघ २२९.

राग-द्रव्य-न्याणि शंघ १७२.

३राग<sup>०</sup>-नाः ऋप्रा १४,५६.

रागिन्-पा ३,२,१४२; पावा ६,  
४,२४.

रज<sup>०</sup>-

रजउद्घासा-, रजः-कर्णी-, प्रम्.,

रजक-√रज् द.

रजनक<sup>१</sup>-कस्य चाश्र ४१:९.

१रजत-प्रम्. √रज्-द.

१रजनि<sup>१</sup> चाश्रौ ८,३,१९; वैताश्रौ ३२,

२५.

रजनि-, नी-, रजस्- प्रम्. √रज् द.

रजिमन्-, जिष्ठ-, जीयस्-√कज् द.

१रजेपित<sup>१</sup>-तम् ऋप्रा २,७१.

रज्जु<sup>१</sup>-पाठ १,१५; पा<sup>१</sup>, पाग ५, ३,

१००; -ज्वः काश्र २, ७;

-ज्जुः आपश्रौ १,१२,८१; माश्रौ

१,१,३; ४२; हिश्रौ १,३,२९१;

१३, ४, १०; काश्रु; या २, १;

२; अत्रा २, ३, १२; -ज्जुभिः

शाश्रौ १७, १०, १०; आपश्रौ

१५, ५, ७; वौश्रौ ६, १०:८;

१०, १२:५; माश्रौ ११, ५,

९; वाधूश्रौ ३, ८१:३; वैश्रौ

१८, ६:६; हिश्रौ २४, २, ४;

वैश्र ५,८:५; -ज्जुभ्याम् वौश्रौ

१५, ६:६; -ज्जुम् शाश्रौ १७,

१०, ११; १२; काश्रौ; -ज्जुपु

आश्रिगृ ३, ५, ६:२६; वौषि

१, ५:१२; हिपि ३:१४;

-ज्जु शाश्रौ १७, २, १; -ज्जुः

शाश्रौ १७, ३, ७; आश्रिगृ ३,

५, ६:२५; वौषि १, ५:१२;

हिपि ३:१३; -ज्जौ हिश्रु २,

३९; -ज्ज्वा काश्रौ ८, ४, १८;

१६, ८, १७; २१, ३, ३१;

आपश्रौ; -ज्ज्वाम् काश्रौ १७, ४,

२६; -ज्ज्वोः कौसू १३, १५.

रजव्य-न्यम् काश्रौ २६, २, ७.

रज्जु-कण्ठ<sup>१</sup>-(>राज्जुकण्ठिन्-

पा.) पाग ४,३,१०६.

रज्जु-छेद-दे अत्र १२, १, १३;

६८, २, ५०.

रज्जु-दामन्-स वौश्रौ ९, ५:९

रज्जु-द्रव्य<sup>१</sup>-न्यम् वौश्रौ ९, १५:

१८.

रज्जु-धान<sup>१</sup>-न्तम् कौसू ४४, २३.

१रज्जु-पत्य<sup>१</sup>-न्यानि अत्र १, ९, ६

रज्जु-सुष्प-प्याणाम् सुघ ३३.

रज्जु-भार<sup>१</sup>-(>राज्जुभारिन्-पा.)

पाग ४,३,१०६.

रज्जु-मय-न्यम् आपश्रौ १५, १५,

१; माश्रौ ११, १५, १७; वैश्रौ

१३, १७:९; हिश्रौ २४, ६, १८;

हिपि १५:६.

रज्जु-मान-न्तम् काश्रु ७, १६.

रज्जु-न्त वैघ १, ६, ४.

रज्जु-विदल-चर्मन्-संगाम् वाघ

३, ५३; गौध १, ३५.

रज्जु-वेणुविदल-त्याभ्याम् गौध २,

५०.

रज्जु-शस्त्र-विप-विभ्रम-प्रतिपिद्-

हत-न्तः वैश्र ५, ११:२.

रज्जु-शस्त्रो(स्त्र-उ)दका(क-ञ्च)रानि-

दंष्टि-पशु-सर्पा(पं-ञ्चा)दि-

-दिभिः वैघ ३, ९, १.

रज्जु-संदान-न्तम् काश्रौ २६, २,

२१; ५, १; ७, २४.

रज्जु-समास-न्तम् काश्रु १, १.

रज्जु(ज्जु-उत)>ता-ताम् काश्रौ

१५, ७, १.

रज्जु(ज्जु-ञ्च)न्त-न्तयोः काश्रु १,

४.

रज्जु(ज्जु-ञ्च)र्थ-र्थे माश्रौ १, १,

३, ४२.

रज्जुदाल<sup>१</sup>->राज्जुदाल-लः शाश्रौ

१६, १०, ४; १२, ५; काश्रौ

२०, ४, १७<sup>०</sup>; वाश्रौ ३, ४, १,

a) घस. । b) पामे. घृ २०५१ S द. । c) भाप. । d) = [रज्जु-नाधन-] कुसुम्भादि- । करणे प्र. ।

e) = निष्ठ-विशेष- (तु. भाष.) । एषः ? । f) = अनुनासिक- । g) घृ ११२२ । द. । h) ध्रुव. । i) वैघ १ द. ।

j) <रज्जु-क- । k) कग. । l) उप. अधिकरणे प्र. । m) अर्थः ? । n) = श्लेषानक-वृध-

(तु. भाषणम्) । o) रज्जु<sup>०</sup> इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. भाष. प्रम्.) ।

५४; वाधूथ्रौ ३, ७६ : ७; ७९ :  
 २४; -लम् आपथ्रौ २०, ९, ६;  
 वौथ्रौ; -लेन वाधूथ्रौ ३, ८१ : १.  
 √रञ्ज् √रञ् द्र.  
 √रट्, रट् पाधा. भ्वा. पर. परिभाषणे.  
 †रडि° -डिः कागृ २६, १०;  
 ५९, ३.  
 √रण् (वधा.)<sup>०</sup> पाधा. भ्वा. पर.  
 शब्दे गतौ च, रणन्ति ऋप्रा ७,  
 ४५; रण>रणा ऋप्रा ७, ३३.  
 रारण वौथ्रौ १३, १३ : ६;  
 या ११, ३९कृ; रणिष्टन शुप्रा  
 ३, १२९.  
 रण्य>या ऋप्रा २, ७४.  
 १रण°- पाग २, ४, ३१; पावा ३, ३,  
 ५८; पागवा ६, १, १९९; -र्णः  
 आपथ्रौ ४, १६, ११<sup>०</sup>; हिथ्रौ ६,  
 ४, १८; अप ४८, १०५; निघ २,  
 १७; -र्णाय आथ्रौ ६, ३, १;  
 आपथ्रौ १०, ३, ८; वौथ्रौ ८, ७ :  
 ९; वैथ्रौ १६, ९ : १; हिथ्रौ ९,  
 १, १३; जैथ्रौ १२ : ३; आपमं  
 २, ७, १३; या ४, ८कृ; ९,  
 २७कृ; १०, ४७<sup>३</sup>; १४, ३६;  
 -णे अप ३६, २४, ११; शंघ  
 ४११; शुप्रा ३, १२९; -णेऽणे  
 वैताथ्रौ ५, १४; -णेऽणोम्<sup>०</sup>  
 माथ्रौ ५, १, ३, २१.  
 रण-कारणा (ण-अ)र्थ- र्थम्  
 आज्यो ७, ५.  
 रण-देवता- -ताः वृदे ५, १३१.  
 रण-प्रवाद- -दः निसू ४, १२ :  
 ३१.  
 २रण<sup>१</sup>- पाग ५, २, ३६; -णम्

वौपि २, १२, ५<sup>०</sup>.  
 रणित- पा ५, २, ३६.  
 रण्य°- ण्या या ६, ३३कृ<sup>०</sup>.  
 †रण्व, ण्वा°- ण्वया आपमं २, १५,  
 १९; पाग ३, ४, ७; कागृ १२,  
 १; मागृ २, ११, १९.  
 √रण्व् > †रण्वत्तु<sup>१</sup> आपथ्रौ  
 १०, २३, २; वौथ्रौ ६, १३ : २;  
 भाथ्रौ १०, १५, ७; वैथ्रौ १२,  
 १६ : १९; हिथ्रौ ७, २, २५; रण्व  
 वौथ्रौ ४, ५ : ५<sup>१</sup>.  
 रण्व-संहृत्°- -हृक् आथ्रौ ४,  
 १३, ७<sup>१</sup>.  
 ३रण<sup>१</sup>- पागवा ४, १, ९९.  
 राणायन- पावा ४, १, ९९.  
 राणायनी->°नी-पुत्र- -त्रः  
 लाथ्रौ ६, ९, १६; निसू ९, १ :  
 १९.  
 राणायनीय<sup>१</sup>- -याः चव्यू ३ :  
 ४<sup>२</sup>.  
 राणायनि- पा, पाग २, ४, ५९;  
 -निम् जैगृ १, १४ : ८.  
 राणि- पा, पाग २, ४, ५९; -णयः  
 वौथ्रौप्र ११ : २.  
 रत्-रति- √रम् द्र.  
 रत्- पाठ १, ९२.  
 रत्त°- पाठ ३, १४; -र्णत्तम् शांथ्रौ ८,  
 ३, ४; आपथ्रौ; वैगृ ४, ११ :  
 १२ऽ; अप ४८, ९०<sup>क</sup>; निघ २,  
 १०<sup>क</sup>; या ५, ५कृ; -र्णत्ता आथ्रौ  
 ५, १८, २; शांथ्रौ; -त्तानाम्  
 अप ६१, १, २५; ७०, ३, २;  
 -त्तानि ऋआथ्रौ ३, १२, १४;  
 ८, ११, ३; शांथ्रौ; शंघ ३७३;

वैघ ३, ३, ९; वृदे ५, १२३;  
 ६, ५२<sup>१</sup>; -त्ते या १३, ५; -त्तेषु  
 विध ९९, १०.  
 †रत्त-घा°- -घाः वौथ्रौ ९, ९ : १०;  
 वौगृ; -घाम् आथ्रौ ४, ६, ३;  
 शांथ्रौ ५, ९, ७; वौथ्रौ.  
 †रत्तघा-त्तम°- -मम् माथ्रौ ५,  
 १, २, १७; अप्राय; या ७, १५कृ;  
 उस् ८, १४.  
 रत्त-भाज्°- -भाक् वौथ्रौ २७,  
 १४ : १६<sup>१</sup>.  
 रत्त-भूत- -तम् पाथि ३१.  
 रत्त-मय- -यौ अप ९, १, ४.  
 रत्त-चर्णा( र्ण-आ)भा- -भा याथि  
 २, ७५.  
 रत्त-विभूयिता(त-अङ्ग>)ङी-  
 -०ङि विध ९९, ३.  
 रत्त-संकाश- -शः अप ७०<sup>३</sup>, २, ५.  
 रत्त-सुवर्णो( र्ण-उ)पस्कर<sup>१</sup>- -राणि  
 मागृ १, २०, ३.  
 रत्त-हविस<sup>३</sup>- -वीपि काथ्रौ १५, ३,  
 १<sup>०</sup>.  
 रत्ता(त्त-अ)पहारिन्- -री शंघ ३७७:  
 १३; विध ५, ८७.  
 रत्तिन्- -त्तिनः आपथ्रौ १८, १८,  
 ९; वौथ्रौ १२, ५ : १; १४ : २४;  
 हिथ्रौ १३, ६, २५; -त्तिनाम्  
 आपथ्रौ १८, १०, १२; वौथ्रौ  
 १८, ५-६ : ६; २६, १ : १६; ३ : ६;  
 १३; हिथ्रौ १३, ४, १; -त्तिभ्यः  
 आपथ्रौ १८, १२, ७; १८, १४;  
 २०, ५, ९; हिथ्रौ १३, ६, २७.  
 रत्ति-हविस<sup>३</sup>- -वीपि वाथ्रौ ३,  
 ३, १, ३४<sup>०</sup>.

a) अर्थः व्यु. च ?। b) पावा ७, ४, ३ परामृष्टः द्र.। c) वैप १ द्र.। d) ऋणः इति पाठः ? यनि.  
 शोघः (तु. तैत्रा ३, ७, ६, २४ हिथ्रौ ६, ४, १८ च)। e) सप्रणवो निर्देशः द्र.। f) = शब्द-। g) वैप १, २६२८ k  
 द्र.। h) पाभे. वैप १, २६२९ c द्र.। i) व्यप.। j) (सामवेदीय-) शाखा-विशेष-। k) = घन-। l) मलो. कस. > वस.।  
 m) पूष. = सेनानीप्रमुदिद्वादशरत्नगृह-निर्वर्त्य- (तु. सप्र. माश ५, ३, १, १-१२)। n) सप्र. रत्न° <> रत्ति° इति पाभे.।

रत्नो(न-उ)त्तम-त्रिभूमि (त>)ता-  
-ताम् विध १,२८.  
रत्नि<sup>०</sup>- पाठ ४,२.  
रत्नि-मात्र- -त्राः कप्र १,२,३.  
रत्नि-मान- -नेषु वौश्रौ २४,११:५.  
रत्निन्- रत्न-द्र.  
रथ<sup>०</sup>- पाठ २, २; पाग ४, ४, १०;  
-०थ आण्ट २, ६, ५१; -थः  
आश्रौ ४, १४, २१; शाश्रौ;  
आपमं १,१,९?; या ३, ५१;  
-यम् आश्रौ ४, १५, २१; ५,  
१४, ४; १८, ५×५; शाश्रौ;  
आपश्रौ १८,३,३<sup>०</sup>; -यस्य आश्रौ  
१२, ८, ११; शाश्रौ १२, १४,  
१; वौश्रौ; -थाः आपश्रौ १३,  
२१, ३१; १८, ४, १७; वौश्रौ;  
-थान् माण्ट १, १४, ५; वाण्ट  
१५, १५; -थान् शाश्रौ १५,  
३,१४; आपश्रौ; -थानाम् वौश्रौ  
२२, १४: २१; २५, ३३:  
१; छुम्; -थाय ऋशाश्रौ १०,  
११, ६; ११, ४, ८; वाधूश्रौ;  
-थे आश्रौ ६,४,१०; शाश्रौ;  
-थेन आश्रौ ३, ८, ११; ६,  
५, २४; ७, १२, ७; ८, ९, २;  
शाश्रौ; -थेभिः या ११, १४१;  
-थेषु आपश्रौ २१, १८, ६;  
वौश्रौ १८, २०: २२; वाश्रौ;  
-थौ काश्रौ २२, ३,१३; आपश्रौ  
२२,४,१४; हिश्रौ.  
रथ-क(ट्य>)ट्या- पाठ २, ५१;  
पावाग ७,३,४४.  
रथ-कार- पाग ४, १,१५१;२,८०;  
-रः वौश्रौ २,१२: १५१; २४,  
१६: ३; भाश्रौ; -रम् वौश्रौ २,

५, ६; भाण्ट १, १: ११; -रस्य  
काश्रौ १, १, ९; आपश्रौ;  
-राणाम् वाधूश्रौ ३,७६: १६;  
-रान् वाधूश्रौ ३, ७६: ३;  
-रेभ्यः आपश्रौ १७, ११, ४१;  
राथकारिक- पा ४, २, ८०.  
राथकार्य- पा ४,१, १५१.  
रथकार-कुल- -ले आपश्रौ २०,  
५,१८; हिश्रौ १४,१, ४८.  
रथकार-गृह-वास- -साः काश्रौ  
२०,२,१६.  
रथ-कुञ्जर- -राः अप ६८,१,३२.  
रथ-कृत्- -कृतः काश्रौ ४,९, ३;  
वौश्रौ १५, १३: १४; १४: ९.  
रथ-क्रीत- -त्तम् कौसू ५८,२५;  
अप ३२,१,३१; अत्र ११,६.  
रथ-क्षय<sup>०</sup>- -याणि शाश्रौ १२,५,  
१३१.  
रथ-नागक- पाग २, २, ९; ५, १,  
१२९; ६,२,१५१.  
राथगणक- पा ५,१,१२९.  
रथ-गोप- -पान्<sup>०</sup> ऋअ २, ६,  
७५; वृदे ५,१३१.  
रथ-गोपायित्- -तृन् शुअ ३,१२३<sup>०</sup>.  
रथ-चक्र- -क्रम् शाश्रौ १६,१७, १;  
काश्रौ १४, ३, १२; आपश्रौ;  
-क्रस्य वौश्रौ २०, १७: २२;  
कौसू १५,४; -क्राणि वौश्रौ १६:  
२; -क्रात् वौश्रौ ३,२: २; वैश्रौ  
१७, १४: ६; -क्रे शाश्रौ १६,  
१७,४; आपश्रौ १८,४, ६; २२,  
२६,१७; २८, १८; वौश्रौ २५,  
३४: ७; हिश्रौ १३,१,४४;५३;  
२३,४,३१; ५७; द्राश्रौ १२, २,  
१४; आपण्ट २२, १४; -क्रेण

वाश्रौ १,४,३,१८; कौसू १४,२.  
रथचक्र-चित्- -चित् काश्रौ १६,  
५,९; वौश्रौ १७, २९: ७; काण्ट  
४, १; वौश्रौ १६: २२; -चितम्  
वौश्रौ १७, २९: ११; हिश्रौ  
१२, ८, ८; आपण्ट १२, १०१;  
वौश्रौ १६: १; हिश्रौ ४, ३११;  
-चिता वौश्रौ १८: ३; ९.  
रथचक्र-चिति- -तौ वौश्रौ २३,  
१५: १५.  
रथचक्रचित्या(ति-आ)कृति<sup>१</sup>-  
-ति वौश्रौ २७,३: १.  
रथचक्र-मात्र- -त्रः वौश्रौ १९,  
१: १३; -त्रम् आपश्रौ १९,  
११,६; हिश्रौ २३, २, ६; काण्ट  
३७,२; वौपि ३,२,८.  
रथचक्रा(क-आ)कृति<sup>१</sup>- -ति:  
काण्ट ७,२,१; -तिम् वैश्रौ २०,  
२८: ११.  
रथ-छिद्र- -द्रेण वृदे ६,१०५.  
रथ-छेदन- -ने अप ७२,३,११.  
रथ-जला<sup>०</sup>- -क्षाम् द्राश्रौ ३, १,  
२३; लाश्रौ १,९,२६.  
रथ-जित्<sup>०</sup>- -जिताम् कौसू ३६,  
१३; अत्र ६, १३०; १३२; अपं  
२: ५९.  
रायजिते(य>)यी<sup>०</sup>- -यीनाम्  
अपं २: ६०१.  
रथ-जुहुभि-देवता- > ष्वत्य-  
-र्यौ ऋअ २,६,४७ शुअ ३,१२८  
रथ-धनुष्- -नुभ्याम् नौध १०,१४.  
रथ-नाडी- -डीम् वौश्रौ १४, १७:  
२४; -डगाम् वौश्रौ २३, ७:  
१८; २४,८: ३.  
रथ-नीट-परिहार<sup>०</sup>- -रः काश्रौ १८,

a) = प्रमाण-विशेष- । < भरवि- इति M.P. । b) वैप १ द्र. । c) पाठः ? रथस्य इति शेषः  
(तु. मत्त. ऋ ८,११,७) । d) पाठि. पृ १२७९ a द्र. । e) परपरं पाठि. । f) वत्त. । g) = रमानय-  
विशेष- । h) पृ. = [धान्तायापयनरथान-] रयोः रथ- ।



५,१८.  
 रथ-नेमि- -मिः या ५,५.  
 रथनेमि-घोष- -पः अत्र २४,५,  
 ५.  
 रथनेमि-मणि- -णिम् कौसु  
 १६,२९; अशां १९,४.  
 रथ-पक्षस्- -क्षसी वैश्रौ १७, १२:  
 १०.  
 रथ-पथ- पा<sup>०</sup>, पाग ५, ३, १००;  
 -थम् द्राश्रौ १०,२, १२; लाश्रौ  
 ३,१०,११.  
 रथ-परिमाण- -णम् आपशु ६, ९;  
 हिशु २,३८.  
 रथ-पर्युढ- -डात् काश्रौ १५, ३,  
 २८.  
 रथ-पुरुषा(प-आ)दि- -द्वयः वैश्रौ  
 २०,१९:५.  
 रथ-प्रोष्ट<sup>०</sup>- -ष्टः वृदे ७,८५.  
 रथ-भ्रेप- -पम् वौश्रौ ११,८:२५.  
 रथ-म(ध्य>)ध्या<sup>०</sup>- -ध्याम् माश्रु  
 २,१३,६१.  
 रथ-मा(त्र>)त्री- -त्री काश्रौ ५,  
 ३,११; आपश्रौ ७,३,७; आपशु  
 ६,४१; हिशु २,३२१; -त्रीम्  
 काठश्रौ ४९; वाश्रौ १, ६, १,  
 १८; हिश्रौ ४,१,३८.  
 रथ-मुख- -खम् वौश्रौ १४, १७:  
 १७; १८, २४: १२; -खे  
 आपश्रौ १७,२०,५; वौश्रौ १०,  
 ५४: १४; १४,१७: १६; २३,  
 ७: १८; २४,८: २; वाश्रौ २,  
 २,४,१५; वैश्रौ १९, ६: १३२;  
 हिश्रौ १२,६,१७.  
 रथ-यज्ञ- -ज्ञस्य काश्रु ७१, १६.  
 रथ-यन्त्र-वारण-प्रवहण-वादित्रा-  
 (त्र-आ)दि- -दिसु अत्र ७२,  
 ३,४.

रथ-न्यान- -नानि आज्यो ७, ५.  
 रथ-यु<sup>०</sup>- -युः या ६,३११.  
 रथ-युग- -गम् वौश्रु २,१,१६;  
 -गेन वौश्रौ २०, २५: ३०.  
 रथ-युज्- -युजम् आश्रौ ३,८,१.  
 रथय<sup>०</sup>->√रथय<sup>०</sup>, रथयति र्निघ  
 २,१४; ४,३; या ६, २८१.  
 रथ-वत् सु १,२.  
 रथ-वर्त्म-मात्र- -त्रम् आपश्रौ ८,  
 ५,१०.  
 रथवर्त्ममात्री- -त्री वौश्रौ २४,  
 २४: १२; -त्रीम् आपश्रौ २,  
 २,७; भाश्रौ २,२, ८; वैश्रौ ५,  
 १: ३; हिश्रौ १,६,९४.  
 रथ-वाहण,न<sup>०</sup>- -णम् शुश्रा ३,  
 ८६१; -णस्य काश्रौ १५, ६,  
 ३०; -णे काश्रौ १५, ६, २७;  
 -र्णम् आपश्रौ १७, १७, ७;  
 २०,१६, १८; वौश्रौ; -नस्य  
 माश्रौ ५,१,८,५; -नात् वैश्रौ  
 १७,११; २; -ने आपश्रौ १८,  
 १७,१४; २०, ९,६; १६, १८;  
 वौश्रौ.  
 रथवाहन-वाह<sup>०</sup>- -हः आपश्रौ  
 १८,२२,६;८; वाश्रौ ३, ३, ४,  
 ३६; ३८; हिश्रौ १३, ७, २४;  
 -हम् वौश्रौ १२,१९:१८;२१.  
 रथ-वाहिन- -हिनः अप १,१०, २.  
 रथ-वा(ह>)ही- -ही काश्रौ १५,  
 १०,१८.  
 रथ-विपर्यासन- -ने काश्रु २७६:  
 ११.  
 रथ-विमोचन-> ०नीय,या<sup>०</sup>-  
 -यम् वौश्रौ ११, ८: २६; वाश्रौ  
 ३, १,२,१२;३, ३, १६; -या:  
 वौश्रौ १२, १४: ९; -यान्  
 आपश्रौ १८,१७,१४; -यानि

काश्रौ १५, ६, २३; हिश्रौ १३,  
 ६,२४.  
 रथ-वीति<sup>०</sup>- -तये वृदे ५, ७३;  
 -तिः वृदे ५, ५०; ७७; -तिम्  
 ऋश्रु २, ५, ६१; वृदे ५, ७४;  
 -तेः वृदे ५,७३.  
 रथ-वृत्<sup>०</sup>- -वृत् आपश्रौ १४,  
 २९,१; अप्राय ६, ३.  
 रथ-शकट-हल-सीर- -रेभ्यः पावा  
 ४,४,७६.  
 रथ-शत- -तानि वाधुश्रौ ३, ७९:  
 ११.  
 रथ-शब्द- -ब्दः आपश्रौ २४, १,  
 ३६; -ब्देन आपश्रौ २१,६,११;  
 वौश्रौ १६, ३: १८; हिश्रौ १६,  
 ३,१२.  
 रथ-शिरस्- -रः काश्रौ १८,५, २०;  
 आपश्रौ १७, २०, ६; हिश्रौ १२,  
 ६, १७; द्राश्रौ ५, ४, १; लाश्रौ  
 २, ८, १; -रसा हिश्रौ १२, ६,  
 १७; -रसि काश्रौ १८, ५, १७;  
 माश्रौ ६,२,५,३३.  
 रथ-संयुत- -ताः वृदे १,८४.  
 रथ-संसारण- -णम् काश्रौ १२, ३,  
 ७.  
 रथ-संसि(त>)ता- -ता वौश्रौ  
 २०, २५: २९; चौशु ३: २५;  
 -तायाः काश्रु २, १; -तायाम्  
 वौश्रौ २०,२६: ८; १९.  
 रथ-सिंहासना(न-अ)सि-छत्र-चामर-  
 ध्वज-नाज-वाजि-वस्त्रा(त्र-अ)  
 लंकार-सांवत्सर-चिकित्सक-पुरो-  
 हिता(त-आ)दि- -दीनि अप  
 ३,१,३.  
 रथ-सीता-हल- -लेभ्यः पावा १,१,  
 ७२.  
 रथ-स्तुति- -तौ या २,५.

रथ-स्थ-स्थः कौट ३, ९, २७; शां ४, ७, ३२.  
 रथस्-पति<sup>१</sup> - तितः वृदे ८, १२७;  
 ऋषा १३, ३०१; उस् ८, १९१.  
 रथ-स्पृत्<sup>२</sup> - स्पृत्तम् कौत् ६, १११.  
 रथस्-चा<sup>३</sup> - पाग ६, १, १५३<sup>०</sup>; ऋत ४, ७, ५.  
 रथ-हीन - नाः बाध २६, १७.  
 रथा(थ-अ)क्ष-क्षः माय १, १३, १७; -क्षम् वौश्रौ १७, ११: ६;  
 माश्रौ ५, २, १२, ९; वाश्रौ ३, १, १, ३२; वैश्रौ १७, १२: ८;  
 -क्षस्य कौट १, ९, ३; शां १, १५, ३; -क्षणाम् वौश्रौ २६, १०: ५; २३: ४; वौश्रु ४: १७;  
 १९; -क्षान् काश्रु ६, ९; -क्षेण वौश्रौ १७, ११: ४; २०, २५: २९.  
 रथाक्ष-मात्र- -त्राणि काश्रौ ८, ८, ६; आपश्रौ १४, ५, १७; वाश्रौ ३, २, ६, १३; हिश्रौ ९, ८, १२.  
 रथाक्षमात्री- -त्री आपश्रु ६, ५; हिश्रु २, ३४; -त्रीम् हिश्रौ ४, १, ३९.  
 रथाक्षा(क्ष-आ)हृति<sup>४</sup> - तित आपश्रौ १८, ४, ३; हिश्रौ १३, १, ४१.  
 रथाक्षा(क्ष-अ)न्तराल<sup>५</sup> - लाः वौश्रौ २६, २३: ७; वौश्रु ४: १६.  
 रथा(थ-अ)ङ्ग-ङ्गम् आपश्रौ १०, १९, ७; माश्रौ १०, १२, १५, २१; आश्रु २, ६, ७; कौट १, ९, १३;

शां १, १५, ९; माय १, १३, १७; पा ६, १, १४९; -ङ्गे काय २७, २; पावा ४, ३, १२०;  
 -ङ्गेन आपश्रौ १०, १९, १४; माश्रौ २, १, ३, १५; हिश्रौ १०, ३, १२.  
 रथाङ्ग-स्तुति- -तयः ऋअ २, २, ५३.  
 रथा(थ-अ)भिमर्श(न>)ना- -नाः वृदे ५, ११२  
 रथा(थ-आ)रोहण- -णम् पाय ३, १४, १; माय २, २९: १.  
 रथा(थ-अ)वहरण- -णम् काश्रौ १४, ३, १.  
 रथा(थ-अ)श्व-गज-धान्य- -न्यानाम् वौध २, ३, ५४.  
 र(थ>)धा-सह- -सहा ऋषा ९, ३.  
 रथा(थ-अ)हृ- -हृत् काश्रौ २५, १४, २४<sup>१</sup>.  
 रथाह्व<sup>२</sup> - ह्वम् आपश्रौ १४, २०, ४; हिश्रौ १५, ५, २३<sup>३</sup>.  
 रथिक- पा ४, ४, १०.  
 रथिन्- -थिन्वः वाश्रौ २, २, ३, ४; शुषा ४, ८५; -थी शैशि १४७.  
 रथिन्-> -न्ती- पावा, पावाग ४, २, ५१.  
 रथी<sup>४</sup> - -थीः आश्रौ १, ३, ६; ७, ८, ३; शांश्रौ १, ४, २०; ७, ९, ३; १८, १८, १३; आपश्रौ १६, ६, ७; वाश्रौ २, १, ५, २०; हिश्रौ ११, १, ७३; -थीनाम् वौश्रौ १८, १७: ५<sup>१</sup>; ऋषा ९, ५१; शुषा ३, १११;

-थ्यः आपश्रौ ३, १५, ५.  
 रथी-त्तम<sup>५</sup> - पावा ८, २, १७;  
 -मः ऋषा ९, ७१; -मम् वौश्रौ १८, १७: ५१; वृदे ५, ११९; शुषा ३, ११११; उस् ४, १९; -मी तैषा ३, ७१.  
 रथी-न्तर<sup>६</sup> - पावा ८, २, १७;  
 -रः वृदे ४, ७३; ऋषा ९, २३१.  
 रथीय> रथीय(त्>)न्ती- -न्ती ऋषा ९, ५०.  
 रथे-शुम्<sup>७</sup> - शुभम् काय २२, ११.  
 रथे (थ-ई)वा- -पया वौश्रौ २०, २५: २९.  
 रथेषा-मा(त्र>)त्री- -त्री माश्रौ ७, २, १८, हिश्रु २, ३४; -त्रीम् हिश्रौ ४, १, ३९.  
 रथे-ष्ठा<sup>८</sup> - ष्ठाम् शांश्रौ ८, १८, ११;  
 रथो(थ-आ-ऊ)ड<sup>९</sup> - -ड ऋषा २, ७११.  
 रथो(थ-उ)पस्थ- -स्थः वौश्रौ १८, २४: १५; -स्थम् द्राश्रौ ३, १, २३; लाश्रौ १, ९, २५.  
 रथ्य, ध्या<sup>१०</sup> - पा ४, २, ५०; ३, १२१; ४, ७६; पावा ५, १, ६; -थ्यः भाशि ५७१; -थ्यम् आश्रौ ७, ४, १२; आपश्रौ १७, ८, ७; वाश्रौ १, ४, ३, ८; वैश्रौ १९, ५: ५३; द्राश्रौ ५, ४, २; २०४; लाश्रौ २, ८, २; २०४; -थ्यस्य हिश्रौ १२, ६, १७; -थ्याः, -थ्यासः या १०, ३१<sup>११</sup>; -थ्याम् गोश्रु १, २, ३२; विष २२, ७५; -थ्यायाम् कौट ३,

a) वैष १ द्र. १

b) = नदी-विशेष- ।

c) रथा- इति न्यायः ।

d) वस. १

e) रथश्च अटः ( = अश्वर्गमः ) इति वृत्वा पन. ममात्तान्तः षच् प्र. ।

f) संप्र. ऋ <> ह्यम् (इन्द्रा १,

३६० न) इति पाठे. । g) स्वार्थे यः प्र. ।

h) ध्याथ्वम् इति संस्कृतः शोधः ? ।

i) पाठे. वैष १

रथीनाम् ऋ १, ११, १ टि. द्र. ।

j) विष., नाप. (रथ-न्मूह-, प्रतीकः-) । वैष १ निर्दिष्टयोः

ममापेशः द्र. १

९, २५; शांठ ४, ७, ३०; कौसु  
१४१, ३८; विध ६०, १२; -ध्वे  
कप्र १४, ३९१.

रथ्या-कर्म-तोय- -यानि विध  
२३, ४१; -येन शंघ १८४.

रथ्या-कर्म-वर्षा- -पांसु शंघ  
१०२.

रथन्तर<sup>b</sup>- पाग ४, १, ८६; १००<sup>c</sup>,  
१०४<sup>d</sup>; -१०२ जैश्रौ १७: ८;  
१०; -रम् ११श्रौ ४, १२, २;  
५, १५, २४; शांश्रौ; निसू १०,  
१३: १७<sup>e</sup>; -रस्य आश्रौ ७, ३,  
१७; ८, ६, ९; शांश्रौ; -रात्  
११श्रौ १०, ३५: ६; १४, २२:  
११; द्राश्रौ; -११राय शांश्रौ १७,  
१३, २; द्राश्रौ १०, ३, ६; लाश्रौ  
३, ११, ३; आश्रौ १५, २: २०<sup>f</sup>;  
अप्राय ६, ९; -रे आपश्रौ ५, ११,  
६; १६, ४<sup>g</sup>; १४, ३१, ३<sup>h</sup>; भाश्रौ;  
-रेण आश्रौ ११, ३, २२; ७, ७<sup>i</sup>;  
९, ११, ५; आपश्रौ.

रथन्तर<sup>b</sup>- पा ४, १, ८६;  
१०४<sup>d</sup>; -र: आश्रौ ४, १२,  
१; वौश्रौ १६, २५: १६;  
१८, १५: १३; निसू ७, १०:  
१५; अप्राय ३, ३; माशि ५७;  
-रम् शांश्रौ ७, १४, २; १०, १३,  
११; १८, ४, ६; भाश्रौ; -रस्य  
लुसू २, १५: २४; निसू ९, ४:  
११; २८; -राणाम् आश्रौ १०,  
५, २०; -राणि लुसू २, ५: ८;  
निसू; -रात् निसू ८, ४: २०;  
-राय शांश्रौ ९, २७, १<sup>h</sup>;  
आपश्रौ; -रे काठश्रौ १६६; लुसू  
१, २: ६; निसू ३, १०: ४१;  
६, ८: १२; १४; -रेण निसू

१०, ४: १०; ११; -रेषु निसू ५,  
५: २३; ६, ३: १५; ४: १;  
९, ४: ३३.

रथन्तरी- -री द्राश्रौ ८,  
२, १४; लाश्रौ ४, ६, १४; निसू  
३, ११: ४; ७, १०: १५.

रथन्तर-वार्हते- -ता: निसू  
८, ३: ९; ९, ४: ३; -तानि  
द्राश्रौ ८, १, २०; लाश्रौ ४, ५,  
१९; निसू ९, ८: १४; -ते लाश्रौ  
१०, १८, ५<sup>h</sup>; निसू ६, ३: १५.

रथन्तर-वार्हते (१तै<sup>h</sup>त-ऐ<sup>i</sup>)  
ड- डानि निसू ९, ५: ३०.

रथन्तरायण- पा ४, १,  
१००.

रथन्तरीयौ निसू ५, ७: ६.

रथन्तर-णि( <नि)घन<sup>f</sup>- -नानि  
निसू १, १३: १४.

रथन्तर-धर्म- -मार्न् निसू ७, १३:  
१८.

रथन्तर-पृष्ठ<sup>f</sup>- -ष्ठ: आश्रौ ६, १०,  
२२; शांश्रौ; -ष्ठम् शांश्रौ १०,  
२, १; १०, १; वाश्रौ ३,  
२, १; ४२; द्राश्रौ ८, १,  
१०; लाश्रौ ४, ५, १०; निसू  
१०, १३: १९; -ष्ठस्य वैश्रौ  
२१, ८: ९; द्राश्रौ ८, २, २४;  
लाश्रौ ४, ६, १४; -ष्ठा: लुसू  
२, २: १; -ष्ठानि आश्रौ ७,  
५, ३; -ष्ठे शांश्रौ ७, २०, ८;  
२१, २; २३, १; वौश्रौ; -ष्ठेन  
शांश्रौ १५, १६, ९; निसू ६, १:  
२२; -ष्ठेषु आश्रौ १२, ७, ४;  
आपश्रौ.

रथन्तर-पृष्ठोमा निसू ६, ३: ४.  
रथन्तर-प्रभृति- -तीनि द्राश्रौ २,

१, १३; लाश्रौ १, ५, १०.

रथन्तर-वृहत्- -हृती द्राश्रौ ८, २,  
१९; लाश्रौ ४, ६, १५.

रथन्तर-वृहत्-पृष्ठ<sup>f</sup>- -ष्ठ: निसू ९,  
११: १४; -ष्ठम् द्राश्रौ ८, १,  
२८; लाश्रौ ४, ५, २३; लुसू २,  
५: २३.

रथन्तर-वृहत्-सामन्<sup>f</sup>- -मा  
दिश्रौ १७, १, २३<sup>h</sup>.

रथन्तर-वृहती-व्यव्यास- -सम्  
द्राश्रौ ८, १, २९; लाश्रौ ४, ५,  
२४.

रथन्तर-भक्ति-><sup>o</sup>क्तिन्- -क्तिन:  
निसू ७, ४: ३.

रथन्तर-भक्ति<sup>f</sup>- -क्ति: निसू ६,  
४: ८.

रथन्तरभक्ति-त्व- -त्वात्  
निसू ६, ४: २०.

रथन्तर-मध्यन्दिन<sup>f</sup>- -न: लाश्रौ  
१०, १४, ३; ८; -ना: लुसू २,  
३: १.

रथन्तर-माध्यन्दिन<sup>f</sup>- -ना: निसू ४,  
१२: २५.

रथन्तर-वत् आपश्रौ १७, ८, ८<sup>h</sup>;  
९, २; वैश्रौ १९, ५: ५४; ६:  
५.

रथन्तर-व(र्ण>)र्णा<sup>f</sup>- -र्णा द्राश्रौ  
३, ४, २४; लाश्रौ १, १२,  
१०; -र्णाम् जैश्रौ १९: १६;  
-र्णायाम् लाश्रौ ७, ११, ६; निसू  
२, ८: १६.

रथन्तर-संनिपात- -ते निसू १,  
१३: १०. -तेषु निसू १, १३:  
१३.

रथन्तर-सामन्<sup>f</sup>- -मा शांश्रौ १३,  
२९, १०; आपश्रौ; -मान:

a) पस. > मलो. कस. ।

b) वैप १ द्र. ।

c) व्यप. ।

d) रथा<sup>o</sup> इति पाठ: ? यनि. शोध: ।

e) पाठ: ? यनि. शोध: ।

f) वस. ।

g) पाप्मे. पृ १८१४ ण द्र. ।

आपश्रौ २१, १४, १४; २२, ५,  
४; ७, १; वीश्रौ २६, २० : ८;  
हिश्रौ १७, २, ३२; -मानम्  
आपश्रौ १०, २, ७; २१, ६, १०;  
९, १; १५, १०<sup>१</sup>××; वीश्रौ;  
-मानौ आपश्रौ २२, ५, २; -म्ना  
आपश्रौ १०, २, ६; २२, ६, २;  
७, २६; १०, २; ६; १२, ११; १७;  
हिश्रौ; -मिन् हिश्रौ ८, ४, १.  
रथन्तर-स्तोत्रिय- -यम् लाश्रौ १०  
७, १०; निसू ५, ४ : १८.  
रथन्तरा(र-अ)मिष्टोम-सामन्-  
-मा छसू २, १ : १०.  
रथन्तरा(र-अ)पचिति- -त्या निसू  
१०, २ : २७.  
?रथाऽस्य<sup>७</sup> अप्राय ५, २.  
१-रथिन्-प्रमृ. रथ- द्र.  
रथिर- पावा ५, २, १०९.  
१-रथीतर- प्रमृ. रथ- द्र.  
२-रथीतर<sup>८</sup>- पाग ४, १, १००; १०४;  
-रः वृदे ३, ४०; ७, १४५; -राः<sup>९</sup>  
आपश्रौ २४, ८, ४; वीश्रौप्र २४ :  
१; ३.  
राथीतर- पा ४, १, १०४; -०२  
वीश्रौप्र २४ : ४<sup>१०</sup>; -रः वीश्रौ  
७, ४ : २५; २०, १ : ३६; ५ :  
१०; ११ : २५; १३ : १९; २६;  
२८ : ८; भाशि ५४; -राणाम्  
वीश्रौ २०, १६ : २; १८ : १.  
राथीतर-स्तुति- -तौ वृदे ५,  
१४२.  
राथीतरायण- पा ४, १,

१००.  
रथीतर-वत् वीश्रौप्र २४ : ४<sup>१</sup>.  
✓रथीय, रथ्य, ध्या- प्रमृ. रथ-  
द्र.  
✓रथ् पाधा. भ्वा. पर. विलेखने, ऋरदति  
अप ४८, ४६; या ६, ३०;  
रद > दा ऋप्रा ७, ३३; ऋरदत्  
या २, २६.  
✓रथ्, न्य्(वधा.)<sup>११</sup> पाधा. दिवा. पर.  
हिंसासंराध्योः, रारन्धि या १०,  
४०; ऋ.  
रथ्यन्ताम् माश्रौ १, ६, २, १७;  
ऋरथ्य वीश्रौ १२, १५ : ११;  
हिश्रौ १३, ६, २७.  
रथ्यासम् वीश्रौ १२, १५ : ११;  
ऋरथम् आपश्रौ ४, १५, १; भाश्रौ  
४, २१, १; माश्रौ १, ६, २, १७;  
हिश्रौ ६, ४, १८; भाशि ४८;  
ऋरथाम वीश्रौ १७, ४२ : १४<sup>१२</sup>;  
आपमं २, ९, ६; आमिष्ट १, ३,  
५ : १५; काष्ट ५९, ५<sup>१३</sup>; भाष्ट २,  
२२ : १६; हिष्ट १, २२, १३; कौसू  
८२, १३; विष ८६, १६; या  
१०, ४०; भाशि ४८.  
रन्धयति माश्रौ १, ३, ३, ११;  
५, ९; माष्ट २, ९, ७; कौसू ८४,  
३; ऋरन्धय, > या या ६, ३२;  
१०, ४०; ऋप्रा ८, ११; ऋरन्धयत्  
अप्रा २, ४, १५.  
रथ्- -धः अप ४८, ११६.  
ऋरन्धयत्- -यन् आपश्रौ ४, १५;  
१; भाश्रौ ४, २१, १; हिश्रौ ६,

४, १८.  
रन्धयित्वा माश्रौ १, ५, ५, १५;  
माष्ट २, ९, ८.  
रथीतर<sup>८</sup> > राथीतर- -०२<sup>१४</sup>, -राणाम्  
वैध ४, ३, ८.  
रथीतर-वत् वैध ४, ३, ८.  
ऋरन्धि<sup>१५</sup> -न्धिः आश्रौ ४, १२,  
२१, काश्रौ २०, ३, ४<sup>१५</sup>;  
आपश्रौ ६, ५, ७<sup>१६</sup>××; वीश्रौ; भाश्रौ  
६, १०, ५<sup>१६</sup>; हिश्रौ ३, ७, २८<sup>१६</sup>;  
द्राश्रौ ९, ४, २२<sup>१६</sup>; लाश्रौ  
३, ८, १२<sup>१६</sup>; माष्ट २, २ :  
६<sup>१६</sup>; शुअ ३, १३<sup>१६</sup>; -न्धिम्  
आमिष्ट १, ४, १ : १९; -न्ती  
वाश्रौ १, ३, २, ५; उनिसू ७ :  
२९; -न्ते काश्रौ १३, ४, १८;  
आपश्रौ.  
रिन्तु अप ४८, ११६.  
रन्धस्- पाठमो २, ३, १७३.  
रन्ध<sup>१७</sup>- पाठमो २, ३, ३०; -न्धम्  
वीश्रौ २५, ७ : ५<sup>१७</sup>; -न्धे लाश्रौ  
१, ६, ४२.  
रिन्धिणी > ण्या( णी-आ )मिक्षा-  
-श्राम् कौसू ६५ : ५.  
✓रथ्( वधा.)<sup>१८</sup> पाधा. भ्वा. पर.  
व्यक्तार्थां वाचि, ऋरपत् ऋप्रा  
२, ४४.  
राथीति ऋप्रा ९, ३२.  
रथ्- -यः वृदे ७, ९५; या ४, २१;  
-पसः वृदे ७, ९५; ८, ५०.  
राथ्य- पा ३, १, १२६.  
र-पर- प्रमृ. १२- द्र.

a) कस. > वस. । b) पाठः ? रथाऽधः वा रथः अधः इति द्विपदो वा शोधः (तु. संस्कृतः टि. मूको.) ।  
c) व्यप. । d) यहु. < राथीतर- । e) सप्र. षी० <> षी० इति पाठे. । f) सप्र. षी० <> षी० इति  
पाठे. । g) या २, २६ परामृष्टः द्र. । h) या ६, ३२ पा ७, १, ६१; ६२; २, ४५ परामृष्टः द्र. । i) रा<sup>१९</sup> इति  
पाठः ? मनि. शोधः ( तु. ऋ १०, १२८, ५ प्रमृ. ) । j) वैप १ द्र. । k) तु. वैप २ १२८- ।  
l) पाठे. वैप १, २६३९ ० द्र. । m) पाठे. वैप १, २६३९ n द्र. । n) पाठे. वैप १, २६३९ p द्र. ।  
o) = कटि-प्रदेश- इति संस्कृतः सूची । p) या ६, २१; ९, ११ परामृष्टः द्र. ।

१रपि<sup>१</sup> शांश्रौ १२, १६, १.

र-प्रकृति- प्रभृ. १२- द्र.

१रप्रसादे<sup>२</sup> अप ४८, २८.

✓रप्श<sup>३</sup>

रप्सु<sup>४</sup> -रप्सु<sup>५</sup> अप ४८, ७९<sup>६</sup>.

✓रफ्, रफ् पाधा. भ्वा. पर. गतौ.

✓रभ्<sup>७</sup>, रभ् पाधा. भ्वा. आत्म. रामस्ये,

रमते हिश्रौ २१, २, ३४; रमस्व

माश्रौ ३, ५, १३<sup>८</sup>.

\*रभ्<sup>९</sup> -> रभीयस्- -यसः शांश्रौ

६, १, ५; -यांसौ शांश्रौ ६, १, ५;

-यान् आश्रौ ३, ४, १४<sup>१०</sup>.

रभमाण- णे माश्रौ ३, ५, १३.

रभस्<sup>११</sup> -> रभस्<sup>१२</sup> - पाठ ३, ११७;

-सः वौध १, ५, ८६; निघ ३,

३<sup>१३</sup>; -सम् आश्रौ ८, १, १२<sup>१४</sup>.

रभसो(स-उ)स्व- -वे शंध

१५७.

†रभ्स्<sup>१५</sup> - रभ्स् अप ४८, १२२; निघ

३, २९; -रभ्स् या ३, २१६<sup>१६</sup>.

र-भावा<sup>१७</sup> १२- द्र.

✓रम्(वधा.)<sup>१</sup> पाधा. भ्वा. आत्म. क्रीडा-

याम्, †रमते आश्रौ ५, १८, २<sup>१</sup>;

शांश्रौ ८, ३, ४<sup>२</sup>; आपसं १, १५,

४; पागृ; रमन्ति अप ६४, ७,

९; रमे या ११, ३९; †रमताम्

आपश्रौ ४, १, ८<sup>३</sup>; वीश्रौ; हिगृ

१, १२, २; †रमन्ताम् आपश्रौ

४, १, १०<sup>४</sup>; ७, १७, १; वीश्रौ;

†रमस्व आश्रौ ३, १२, २३;

काश्रौ; गोश्रु ३, ४, २४<sup>५</sup>; रम

आश्रौ ८, १३, १<sup>६</sup>; †रमेयाम्

काश्रौ ८, ४, ५; आपश्रौ; †रमध्वम्

आश्रौ ८, १३, १; शांश्रौ; आपश्रौ

२१, ९, १३; हिश्रौ १६, ४,

१२<sup>७</sup>; रमत आमिगृ २, ४, ८:

१६; अरमत वाधुश्रौ ३, १९:

११; अरमन्त या १२, ४३.

रन्त या १२, ४३<sup>८</sup>.

†रारन्धिजैश्रौ १४: २१; द्राश्रौ.

रम्णाति निघ २, १९<sup>९</sup>;

रम्णातु माश्रौ २, १, ३, ३९<sup>१०</sup>;

†अरम्णात् आश्रौ ९, ८, ४;

शांश्रौ ८. २५, १; या १०, ३२<sup>११</sup>;

अरम्णाः या १०, ९<sup>१२</sup>.

रमयति माश्रौ ९, १२, १२; या

४, १०; रमयतः वीश्रौ ६, २५:

७; रमये वृदे ६, ५४; †रमयतु

काश्रौ ४, १४, २२<sup>१३</sup>; आपश्रौ;

वैताश्रौ ७, १७<sup>१४</sup>; †रमय > या<sup>१५</sup>

आश्रौ १, २, १; ऋप्रा ९, ४३;

†रमयत आपश्रौ १९, २५, १८;

वीश्रौ; रमयन्त या १२, ४३;

अरमयन् या १०, ३२; अरमयः

ऋप्रा ९, ४३.

रमयो<sup>१६</sup> / ऋ, रमयामकः पा ३, १,

४२.

रत- -तम् अप ७०, १, १; -तस्य

वाध १०, २०.

रति- -तयः अप ४८, ८६<sup>१७</sup>; -†ति:

आश्रौ ४, ७, ४<sup>१८</sup>; काश्रौ १२, ४,

८<sup>१९</sup>; आपश्रौ २१, ९, १३<sup>२०</sup>; हिश्रौ

१६, ४, १२<sup>२१</sup>; शांश्रु ३, ११, ४<sup>२२</sup>;

पागृ १, १०, १<sup>२३</sup> × ×; वाध १२,

२३<sup>२४</sup>; विध ८६, ९<sup>२५</sup>; शुभ्र १,

५३८; -तिम् अप ७०<sup>२६</sup>, १६,

२; विध ५१, ७०; वृदे ६, ५५;

-तौ शंध १७७<sup>२७</sup>.

रति-संसर्ग- -ने वाध २८, ८;

वौध १, ५, ४९.

रति-संप्रयोग- -ने वाध १६, ३६

रत्य(ति-अ)न्त- -न्तम् आमिगृ

१, ६, ३: ६७; २, ७, ६: ३४.

रत्य(ति-अ)र्थ- -र्थम् विघ २६,

५; ऋअ २, १, १७९.

रत्य<sup>२८</sup> - -रत्यम् शांश्रौ १८, ३, २<sup>२९</sup>.

रभ<sup>३०</sup> -मः शांश्रौ १८, २१, ११;

काश्रौ १३, २, २४<sup>३१</sup>; द्राश्रौ ९, ४,

२२<sup>३२</sup>; लाश्रौ ३, ८, १२<sup>३३</sup>; हिगृ

१, १२, २<sup>३४</sup>; जैश्रु १, २२: ११<sup>३५</sup>.

रमक- पाठ २, ३३.

रमण<sup>३६</sup> - पाग ३, १, १३४; -णम् या

१, ११; -णात् या ६, १७; -णाय

वाध १८, १८; या १२, १३.

रमणीय- -यम् माश्रौ १, ५,

५, १६; -यानाम् या ७, १५;

-यानि अप ५५, ६, ३; ५७,

२, ७; -याय या ४, ८; ९,

२७; १०, ४७; १४, २६; -ये

या १, २०; -यौ या ६, ३३.

a) पाठः ? रभि- > -भिम् इति शोधः (तु. वैप १, २४६५ ० टि.) । पृ २६६० यदुक्तं तत्रेष्टम् ।

b) पाठः ? अग्रमादे इति शोधः संभाव्येत (तु. मूको.) । c) ऋप्रा ६, २२ परामृष्टः द्र. । d) = रूप- ।

e) सपा. निघ ३, ७ प्सुः इति पाभे. । f) पा ७, १, ६३; ४, ५४ परामृष्टः द्र. । g) वैप १ द्र. । h) = महत्- ।

i) या १०, ९ पा ७, २, ७३ पावा ६, ४, ५२ परामृष्टः द्र. । j) पाभे. वैप १, ११७९ f द्र. । k) पाभे. वैप २,

३खं. तैत्रा ३, ७, ४, ३ टि. द्र. । l) पाभे. वैप २, ३खं. रमस्व मंत्रा १, ७, ११ टि. द्र. । m) पाभे. वैप १,

२६३९ ङ द्र. । n) घा. वधे वृत्तिः । o) पाभे. वैप १, २६२९ ० द्र. । p) घा. संयमने वा विसर्जने

वा वृत्तिरिति या. । q) पाभे. वैप १ रमयतु का ३, २, ५ टि. द्र. । r) पाभे. वैप १, २६३५ j द्र. । s) = मैथुन- ।

t) तु. चौसं. । रसः इति अच्यु. ? । u) कर्त्राचर्ये कृत् ।

रमणीय-क<sup>०</sup> -कम् सु ७,२.  
 रमण्य- पाठ ३, १०१.  
 र्मति<sup>०</sup> - पाठ ४, ६३; -तिः  
 आपथ्रौ ४, १०, ४; १०, ३, २;  
 २१, ९, १३<sup>०</sup>; १२, ७<sup>०</sup>; वौश्रौ  
 १५, ७ : ४; १६, ८ : १२<sup>०</sup>; १७,  
 ४३ : ६<sup>०</sup>; भाश्रौ; हिश्रौ १६, ४,  
 १२<sup>०</sup>; -तिम् आमिगृ १, ४,  
 १ : १९; -०ते हिश्रौ ६, ३, २.  
 रममाण- -णः या ९, ११; -णम्  
 या १, २०; -णाः वौश्रौ ११,  
 ११ : ३.  
 रमयत्- -यन्तः वौश्रौ १५, ३ : ४;  
 १८, १८ : ९.  
 रम्य, म्या- -म्यम् अप ६८, १,  
 २९; -म्या अप ४८, ७४<sup>०</sup>;  
 -म्यान् अष ७, ६०; -म्ये वृदे  
 ५, ७५; -म्येषु निध ९९, १६.  
 रम्या(म्य-अ)क्षि<sup>०</sup> - -क्षिः शुभ  
 ३, ५९.  
 रम्या(म्या-आ)वसय-प्रिय<sup>०</sup>-  
 -यस्य वाध १०, २०.  
 रा(म्य>)म्या<sup>०</sup> - -म्या निध १,  
 ७<sup>०</sup>.  
 रिरंसत्- -सतोः वृदे ४, ५९.  
 रिरंसु- -सुः वृदे ४, ५८.  
 रमट- पाठभो २, २, ११४.  
 र-मध्य- २२- द.  
 √रम्फ् √रफ्. द.  
 √रम्, म् पाधा भ्वा. आत्म. शच्चे,  
 रम्भन्ति<sup>०</sup> याशि १, ८; नादि

१, ५, ३; रम्भान्ति माशि १, ९<sup>०</sup>.  
 रम्भण- -णम् षप ७०<sup>०</sup>, ३, ५.  
 √रम्भ् √रम्. द.  
 ररम्य- ( > रम्य-वत्- पा. ) पाग  
 ४, २, ८६.  
 √रम्भ् पाधा. भ्वा. पर गतौ.  
 √रम् पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ.  
 रय<sup>०</sup> - -यः माश्रौ १, ५, २, १३.  
 रियि<sup>०</sup> - -यिः शाश्रौ ४, १६, ५; ५,  
 १०, ८<sup>०</sup>; आपथ्रौ; अप ४८, ७५<sup>०</sup>;  
 निध १, १२<sup>०</sup>; या ४, १७९;  
 -यिम् आश्रौ १, ६, १××; शाश्रौ;  
 वौश्रौ २, १६:५<sup>०</sup>; आपमं १, ३,  
 २<sup>०</sup>; ८, ४<sup>०</sup>; पाठ १, ४, १६<sup>०</sup>;  
 काठ २५, २२<sup>०</sup>; वौश्रौ १, ४,  
 ८<sup>०</sup>; भाश्रौ १, १६:३<sup>०</sup>; माश्रौ १,  
 १०, १०<sup>०</sup>; वाश्रौ १४, १०<sup>०</sup>; जैश्रौ  
 १, २१:५<sup>०</sup>; -यीणाम् आश्रौ ३,  
 ८, १; आपथ्रौ; या ४, १७९;  
 -य्या आश्रौ २, ५, ९; आपथ्रौ;  
 -य्याम् वौश्रौ १६, २७ : ५;  
 -य्यै आपथ्रौ ९, ९, १०××;  
 वौश्रौ १४, २४ : ३९<sup>०</sup>; भाश्रौ  
 ९, ११, ८<sup>०</sup>; १२, १२<sup>०</sup>; माश्रौ;  
 हिश्रौ १५, ३, १<sup>०</sup>; १०<sup>०</sup>;  
 अप्राय ५, १<sup>०</sup>.  
 रयि-धारण-पिण्ड<sup>०</sup> - -ण्डान् कौत्  
 २८, ३.  
 रयिन्-> रियिन्-त्तम- -मः  
 शाश्रौ १०, ६, १४; १८, १८, ९;  
 शाश्रौ ६, ४, ४.

रियि-पति- -तये आपथ्रौ ६, १३,  
 २; हिश्रौ ३, ७, १०५; -०ते<sup>०</sup>  
 वौश्रौ १४, ८ : १५; हिश्रौ १०,  
 ४, २५.  
 रयि-मत्- -मते शाश्रौ २, १०, १;  
 काश्रौ ४, १४, २२; वैताश्रौ;  
 -मन्तः वृदे ४, ७२; -मन्तम्  
 माश्रौ १, २, ६, ४<sup>०</sup>; -मन्तौ  
 वौश्रौ २०, १८:१४; २८, ३:१६;  
 माश्रौ ५, १, ३, १८; ५, ४; ३१;  
 १०, ११; -माम् आश्रौ २, ५,  
 १२; शाश्रौ २, १५, ४; वौश्रौ.  
 रियिमती- -त्यै आपथ्रौ २०,  
 ४, ३; वौश्रौ १५, ५ : २२; हिश्रौ  
 १४, १, ३८.  
 रियि-वत्- -०वः शाश्रौ<sup>०</sup> १०, ६,  
 १४; १८, १८, ९; शाश्रौ ६, ४,  
 ४<sup>०</sup>; ऋश्र २, ६, ४४<sup>०</sup>; ३, २५.  
 रियि-वृध्- -वृधः आश्रौ ३, ८,  
 १; ८, १०, १; आपथ्रौ १९,  
 १६, ५; वौश्रौ.  
 रियि-ष्ठ > छा<sup>०</sup> - -छा आपथ्रौ  
 १९, १७, ११; वौश्रौ १४, १५ :  
 १३; हिश्रौ २२, १, २२; -ष्टम्  
 आश्रौ ३, १०, १६; आपथ्रौ  
 ९, १०, १७; वौश्रौ.  
 रयि-स्थान<sup>०</sup> - -नः ऋश्र ५, २९<sup>०</sup>.  
 √रयीच > रयीचत्<sup>०</sup> - -यन् ऋश्र  
 ९, १४<sup>०</sup>.  
 रराका<sup>०</sup> - (> राराक्य- [ > राराक- ]  
 पा.) पाग ४, १, १०५; २, १११.

a) = द्यौ-विशेष- । MIV. रामणीयक- इति शोधः । b) वैप १ द. । c) पाभे. वैप १, २६३९ ० द. ।  
 d) = रादि- । e) सपा. रम्या < > राम्या इति पाभे. । f) = ऋषि-विशेष- । वस. । g) वस. > वस. ।  
 h) परररं पाभे. । i) = रयि-? । j) पाभे. वैप १, २६३५ j द. । k) = उदक- । l) पाभे. वैप १, १२३१ k  
 द. । m) पाभे. वैप १ रुयिम् ऋ १०, ८५, ४१ टि. द. । n) पाभे. वैप २, ३२०. ध्वनम् तत्रा ३, ३, ११, २  
 टि. द. । o) पाभे. वैप १ राये गा १३, ३५ टि. द. । p) = वृक्षोष्ट- ( वृ. दारितः BIV. प्रयु. ) । मदनफल-  
 इति केशवः ? । q) पाभे. वैप २, १५८८ h द. । r) पाभे. वैप १, २६१२ ० द. । s) वृ. पागम. ।  
 भरराका- शयन्तः ( वृ. पागम. ), अदरक- इति पावि, अररक- इति भाण्डा. प्रयु. ।

रराट<sup>a</sup>- -ऱट्म् काश्रौ ८, ४, १५;  
 आपश्रौ; -टात् पागु ३, ६, २;  
 -टानि आपश्रौ १८, ३, २; वाश्रौ  
 ३, १, १, २७; हिश्रौ १३, १,  
 २८; -टे हिश्रौ ७, २, ७८.  
 रराटी<sup>b</sup>- -टी आश्रौ ४, ९, ४;  
 हिश्रौ ७, ५, २५; -टीम् आश्रौ ४,  
 १३, ४; आपश्रौ; -ट्याः आपश्रौ  
 ११, ८, ४; हिश्रौ ७, ५, २६;  
 -ट्याम् आपश्रौ ११, ८, १.

रराट्या(टी-आ)ल्म्भन-  
 -नम् काश्रौ ९, ३, १६.

रराट्य, ट्या<sup>c</sup>- -ऱट्या आपमं २,  
 २२, १; पागु ३, १३, ५; हिगु १,  
 १५, ३; -ट्याम् काश्रौ ८, ३, २३;  
 ४, १५; द्राश्रौ ३, १, ९; लाश्रौ १,  
 ९, ९; -ट्येषु वौश्रौ २६, ११: ५.

रराण-, ररिवस्- √रा द्र.

√रर्फ<sup>d</sup> पाधां. भ्वा. पर. गतौ.

र-ल-, र-लोप- १र- द्र.

रव-, रवण-, रवत- √र द्र.

रवत्प्रतिपेध- १र- द्र.

रवथ- प्रभृ. √र द्र.

?रवन्ति<sup>e</sup> या १४, ३१.

रवमाण- प्रभृ. √र द्र.

रवि<sup>f</sup>- -विः सु ३, ५; कप्र १, ९, २;  
 वाध ११, २२; वेज्यो २२; -विम्  
 आम्रिगु २, ४, ११: १४; अप  
 ५३, १, १; वौध ४, ८, ३; -वेः  
 अप ५२, ९, ३; ५३, १, २; ६५,  
 २, ११; वृद्धे ३, १०; १७; -वौ  
 कप्र १, ९, ४; वाध २७, १८;  
 वौध ४, ५, ३१.

रवि-कल्प<sup>g</sup>- -ल्पम् आम्रिगु २, ४,  
 ११: १.

रवि-वर्ष<sup>h</sup>- -र्षेण वैगु ३, २१: ७.

रवि-संक्रम-हीन- -नः कागुड  
 ४३: १७.

रवि-सोम<sup>i</sup>- -मयोः अप ६४, ४, ५;  
 ७, ३; -सौ अप ६४, ७, ४.

रवितु- √र द्र.

र-विधान- प्रभृ. १र- द्र.

√रश(वधा.)>रश(न>)ना<sup>a</sup>- पाउ  
 २, ७५; -न्या आश्रौ ९, ५, २१;  
 शाश्रौ ५, १९, २०१; आपश्रौ ७,  
 ११, ५; १५, ९, ५; वौश्रौ; -नयोः  
 वौश्रौ १७, २८: ३; -ना काश्रौ  
 ६, ३, १३; आपश्रौ २०, २,  
 ७; वौश्रौ; -नाः शाश्रौ १६,  
 १८, १०; काश्रौ ८, ८, १६;  
 आपश्रौ; लाश्रौ ८, ११, २३?;  
 अप ४८, ८२१<sup>k</sup>; निघ २,  
 २५१<sup>k</sup>; -नानाम् आपश्रौ १४,  
 ७, ५; हिश्रौ ९, ८, ३७; १३, १,  
 २४?; -नाभिः या ३, १४१;  
 -नाभ्याम् आपश्रौ १४, ५, १२;  
 ६, १२; वौश्रौ; -नाम् काश्रौ ९,  
 ८, १; २०, १, ७; २५; आपश्रौ;  
 -नायाः आपश्रौ १९, १६, १५;  
 भाश्रौ ७, ८, ६; वाधूश्रौ ४, ६३:  
 ५, ८; वाश्रौ; -नायाम् आगुड, ८,  
 १५; अप्राय ३, २; -नासु वौश्रौ  
 १७, १२: ७; -ने काश्रौ ८, ७, ५;  
 आपश्रौ ७, ८, ३; ११, २; काठश्रौ.  
 रशन-गुण- -णे वाश्रौ १, ६, ३,  
 २५<sup>m</sup>.

रशन-संसि( त> )ता- -ताम्  
 आपश्रौ १४, ६, १०; वौश्रौ १७,  
 १२: ६; हिश्रौ ९, ८, १७.

रशाना-काल- -लात् वौश्रौ २०,  
 २५: १०; -ले आपश्रौ १८, १,  
 १२; हिश्रौ १३, १, ९.

रशाना-कृत<sup>n</sup>- -तः कौसू १२७,  
 ५१.

रशाना-गुण- -णे<sup>o</sup> आपश्रौ ७,  
 ११, ९; भाश्रौ ७, ९, ६.

रशाना(ना-अ)प्र- -प्रम् वाश्रौ १,  
 ६, ३, २१.

रशाना(ना-आ)दाना(न-आ)दि-  
 -दि काश्रौ २०, ३, २१.

रशाना-देश- -शे आपश्रौ ७,  
 १०, ४; वैश्रौ १०, ८: १४;  
 हिश्रौ ४, २, ४९.

रशाना(ना-अ)न्त- -न्तेन हिश्रौ  
 ४, ३, १७.

रशाना-परिव्याण- -णे वैश्रौ १७,  
 ८: १.

रशाना-पृथक्त्व- -त्वात् शाश्रौ  
 ६, ९, ४.

रशाना-स्थान- -ने वाश्रौ ३, १,  
 १, ९.

रशाना-हस्त<sup>p</sup>- -स्तः वौश्रौ ७,  
 ९: १.

रशानो(ना-उ)दसन- -नम् वैश्रौ  
 १७, १०: १०.

रशि<sup>q</sup>- पाउ ४, ४६; -श्मयः  
 ऱआपश्रौ १०, १, १४; ३, १;  
 १६, ११, १२; १२, १; वौश्रौ;  
 -ऱश्मये आपश्रौ १५, १०, २;

a) वैप १ द्र. । b) = (पूर्वद्वारस्थणयोर्विद्वा-] ऐषीकी-) रज्जु- । c) विप., नाप. (रराटी-) । स्वार्थाद्यर्थे  
 यत् प्र. । d) तु. BPG. । e) R.N. द्रवन्ति इति, शिवसं. भडकमकरश्च द्रवम् इति ? । f) = सूर्य- ।  
 व्यु. ? । g) = कर्म-विशेष- । h) उप. = संवत्सर- । i) उप. = चन्द्र- । j) रसनाः इति पाठः ? यनि. शोधः  
 (तु. MW.) । k) = अङ्गुलि- । l) रशानाम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. पूर्व स्थलम्, आपश्रौ. च) । m) सपा.  
 ँनगु<>नागु इति पामे. । n) वसः ।

वौश्रौ ९, ९ : २६; भाश्रौ ११, ९, १८; -†रिमिः शाश्रौ<sup>a</sup> ४, १२, १०; १७, १३, १०; आपश्रौ १४, १०, १<sup>b</sup>; १७, ३, ५<sup>b</sup>; काठश्रौ; वौश्रौ १०, ४५:८<sup>b</sup>; १४, २०:७<sup>b</sup>; माश्रौ २, ५, २, २६<sup>a</sup>; वैश्रौ १७, ६ : ६<sup>b</sup>; हिश्रौ १०, ८, ४६<sup>b</sup>; १२, १, ३२; द्राश्रौ १५, ३, १<sup>b</sup>; लाश्रौ ५, ११, १<sup>b</sup>; वैताश्रौ १७, ४<sup>b</sup>; वृदे ३, १७५; चाश्र १७ : ५<sup>b</sup>; ऽया २, ६; १४<sup>c</sup>; १५<sup>c</sup>; -†रिमिना काश्रौ १२, १, २१; १७, ११, ९; आपश्रौ १६, ११, १२; माश्रौ<sup>b</sup> ५, २, १६, १४; ६, २, २, ३; वाश्रौ १, १, ६, ५<sup>b</sup>; २, २, १, २२<sup>b</sup>; वैश्रौ १८, १० : ६; हिश्रौ ११, ४, १२; शुश्र २, २१२; -रिमिभिः आश्रौ ६, १४, १८; आपश्रौ; वौश्रौ १४, १२ : १२; २१, ३ : १२; ८ : २३; भाश्रौ; -†रिमिभ्यः वौश्रौ ९, १२ : ७; भाश्रौ ११, १२, २; माश्रौ ४, ३, ३९; वैश्रौ १३, १० : १७; १४ : १३; हिश्रौ २४, ३, ७; -रिमिम् आश्रौ २, १३, ७<sup>f</sup>; -रिमिषु आपश्रौ ५, १०, ८; माश्रौ १, ७, ५, ३१; ५, १, ६, ६; वाश्रौ; -रिमी द्राश्रौ १, २, २५; लाश्रौ १, २, १९; -†रिमीन् आश्रौ ३, १०, १६; आपश्रौ ९, १०, १७; २२, २८,

२१<sup>g</sup>; वौश्रौ; -रिमीनाम् आपश्रौ १२, २१, २; ११; १३, १६, ८<sup>h</sup>; वौश्रौ ३, २१ : ६<sup>f</sup>; ७, ५ : ४४<sup>h</sup>; ६ : ३०<sup>h</sup>; १८, २३ : ४; †वैश्रौ १५, १२७ : ७<sup>h</sup>; १६, २० : ६; †हिश्रौ<sup>a</sup> १०, ४, २२; ५, १२; अप; -रिमेः साश्र १, १४७; -रिमौ पा ३, ३, ५३. रिमि-नामन्-मानि निघ १, ५; या २, १५. †रिमि-पवि(त्र)वा-त्रामिः आपश्रौ ४, ४, ४; वौश्रौ २, १ : ४; भाश्रौ ४, ५, ५; हिश्रौ १, ४, ५०. रिमि-पोपम् या १२, १६. रिमि-भेद-दे अप ५३, ६, २. रिमि-वत्-चन्तः या १२, ३२; -वान् अप ५१, २, ५. रिमि[रिमी<sup>g</sup>]वती<sup>d</sup>-तीः<sup>e</sup> आपश्रौ १६, ११, १२; वाश्रौ २, १, २, ३१; -तीभिः वैश्रौ १८, १० : ७<sup>g</sup>; -तीम् शुप्रा ३, ९७. रिमि-संसर्जन-नम् अप ५१, २, ३. रिमि-संगम-मे अ१ ५१, २, ४. र-श-र-प- १२- द्र. √रस्(वधा.)<sup>f</sup> पाधा. भ्वा. पर. शच्चे; जुरा. उभ. आत्वादनस्नेहनयोः, रसति निघ ३, १४<sup>f</sup>. रसत्-रसद्भिः अप ६३, २, ३; ६४,

७, ५. रसन-नम् अप ६४, ६, ४; ९, ५. रिस्<sup>d</sup>-पाग २, ४, ३१<sup>b</sup>; ५, २, ९५; -सः शाश्रौ ७, १५, ८<sup>f</sup>; १५, १, ३६; काश्रौ १५, ६, २४; २५, ११, २२; आपश्रौ; द्राश्रौ ७, ३, १<sup>g</sup>; लाश्रौ ३, ३, १<sup>g</sup>; निस् १, ५ : १९<sup>f</sup>; †अप ४८, ७५<sup>h</sup>; ८८<sup>g</sup>; १०२; †निघ १, १२<sup>h</sup>; २, ७<sup>g</sup>; -सम् शाश्रौ १५, १, ३७; आपश्रौ; गोश्र ४, १, ८<sup>m</sup>; कौस् २१, १७<sup>h</sup>; -सस्य आपश्रौ १०, १३, ११<sup>f</sup>; वौश्रौ २८, ९ : १०<sup>f</sup>; वैश्रौ २१, १ : ७<sup>f</sup>; वैताश्रौ १२, ९<sup>f</sup>; माश्र २, ४, १०; विघ ६, १४<sup>o</sup>; वृदे २, १९; -साः वौश्रौ २, ११ : १; वैश्रौ १, ४ : ११<sup>f</sup>; हिश्रौ; कौस् ८, १९; वाघ ६, ३१<sup>o</sup>; ऋप्रा १८, ५९; -†सात् आपश्रौ १६, २९, २; वैश्रौ १८, २० : २७; हिश्रौ ११, ८, ४; या १४, ६९<sup>h</sup>; -सान् वौश्रौ १८, ८ : ३; निस् ४, २ : ३४; पाश्र १, १९, ५<sup>o</sup>; कौस्; हिघ १, ५, ४७<sup>o</sup>; -सानास् हिश्रौ १२, ६, ६<sup>f</sup>; अप ७०, ६, १; ७१, १, ५; शंघ १७६; आपघ १, १७, १५<sup>r</sup>; २०, १५; हिघ; -सानि या ११, २५<sup>h</sup>; -†साय आश्रौ २, ७, ७; शाश्रौ ४, ५, १; आपश्रौ; -†से काश्रौ २५, ८, ५; माश्रौ ४,

a) परस्परं पाभे. । b) परस्परं पाभे. । c) शुप्रा. पाठः । d) वैप १ द्र. । e) पाभे. पृ १८८३ k द्र. । f) या ६, २१; ९, ११; ११, २५ परानृष्टः द्र. । g) धा. अर्चने वृत्तिः । h) तु. पागम. । i) पाभे. वैप १, ११२३ d द्र. । j) = छन्दो-विशेष- । k) = उदक- । l) = अन्न- । m) = मांस-नृप- । n) कथं ? । o) = तरल-व्यदर्श- । p) = [शरीरस्थ-] धातु-विशेष- । q) = [मजुरादि-] पठ्-रस- । r) परस्परं पाभे. । s) 'नि तानि इति पाठः ? 'न्यितानि इति समर्तकपदः शीघ्रः । अस्मिन् कले 'कथं रसाया [= 'यानि (रसमयानि) तैतु. पपा. 'याः इति]] पयति अन्तरः' इति मन्त्रत्य वा. (तु. [अर्थतः] दुः; वैतु. अन्ये सर्वेऽन्य-भाटनः ? तथाहि— लसं. शिवसं. पूर्वपाऽसमस्तं कथं रसानि इति, रस. RN. RNMI. भज्जमकरथ तदेव समस्तनिधि) ।



१, १९<sup>०</sup>; आमिगृ ३, ६, ३ : २९;  
 वौषि १, १२ : ५; -सेन आश्रौ  
 १, ३, २३<sup>१</sup>; ऋशांश्रौ २, ८, १०;  
 ८, ९, २; आपश्रौ; शांगृ २,  
 १३, ८<sup>०</sup>; या १४, ४<sup>०</sup>; -सेभ्यः  
 निसू ४, २ : ३६; -सेषु कौसू  
 १३९, १६; अप १, १२-१६,  
 ४; १७-२०, ३; २३, ३; २४,  
 ३; -सैः कौसू २१, २४; ६२,  
 १८; ६६, ९; ६८, २३; अप;  
 आपध २, ६, १४<sup>१</sup>.  
 रस-कर्मन्- -र्माणि कौसू २१, २२.  
 रस-ज- -जानाम् विध ५०, ४९.  
 रस-देवता->°व(त्य>)त्या-  
 -त्या शुभ्र १, ५५५.  
 रस-धारण- -णम् या ७, ११.  
 रस-पूर्ण- -र्णम् अप २०, ३, ४.  
 रस-प्रतिषेध- -धः मीसू ९, ४, ३८.  
 रस-प्राशन- -नात् वाश्रौ ३, २, २, ६.  
 रस-प्राशनी<sup>०</sup>- -नी कौसू २१, २१;  
 -न्या वैताश्रौ २१, २०; ३०, ६.  
 रस-भोजन- -नम् मीसू १०, ६, २७.  
 रस-मिश्र- -श्रम् कौसू ११, १४;  
 २२, १; २३, १५.  
 रस-वत्- पा ५, २, ९५; -वत् वैश्रौ  
 ११, ११ : १२; -वतः कौसू २०,  
 २३; -वते वैश्रौ १३, ७ : ४;  
 हिश्रौ २२, २, १८; -वान् वैश्रौ  
 १३, ७ : ५.  
 रस-वर्जम् शंघ ६२.  
 रस-वाचित्व- -त्वात् पावा ४, ४;  
 २४.  
 रस-हरण- -णात् या २, २०; ३,

१६; ११, ५.  
 ऋसा(स-अ)अ-भुज्- -भुक् अप १,  
 ३७, १; ३९, ३; अशां ७, १; ९, ३.  
 रसा(स-आ)दान- -नम् अप ४८,  
 १४५; वृदे २, ६; या ७, ११.  
 रसा(स-आ)दि- -द्वयः वैगृ २, १८ : ५.  
 रसादि-धेयु<sup>१</sup>- -न्तुः अप ९, ३, ३.  
 रसा(स-आ)देश- -शः द्राश्रौ १, २,  
 १४; लाश्रौ १, २, ८.  
 रसा(स-आ)धारण- -णम् अप ४८,  
 १४५.  
 रसा(स-अ)नुप्रदान- -नम् या ७,  
 १०; -नेन या १०, ३४.  
 रसा(स-अ)न्यत्व- -त्वे अप ७०, ६,  
 १.  
 ऋरसिन्- -सिनः आश्रौ ३, ९, ५;  
 ५, १५, २१; ७, १२, ७; शाश्रौ.  
 ऋरसिनी- -नी आपश्रौ २२, १५,  
 १३; हिश्रौ १७, ६, २६.  
 रसो(स-उ)त्पत्ति- -त्तिः अप ६४,  
 ९, ८.  
 रसो(स-उ)दक<sup>१</sup>- -कम् शंघ ११६ : ७.  
 ररस<sup>१</sup>- (>रासायनि- पा.) पाग ४,  
 १, १५४.  
 र-संधि- २२- द्र.  
 रसा<sup>१</sup>- -सा या ११, २५; -साम् वृदे  
 ८, ३२; -सायाः या ११, २५<sup>१</sup>कृ.  
 रसा-तल<sup>१</sup>- >°ल-ग (त>)ता-  
 -तां विध १, १२.  
 रसातल-तल- -लम् विध १, ४५.  
 रसातल-समुद्भव- -वान् अप  
 ६४, १, ४.  
 रसा-पार->°र-निवासिन्- -सिनः

वृदे ८, २४.  
 रसायु- पाठभो २, १, ४.  
 रस्न- पाठ ३, १२.  
 र-स्वरित- १२- द्र.  
 ✓रह<sup>१</sup> पाधा.भ्वा.पर., चुरा.उभ. त्यागे.  
 रहस्<sup>१</sup>- पाठ ४, २१५<sup>१</sup>; पा ५, ४,  
 ५१; पाग ३, १, १२; ४, ३, ५४;  
 -हः सु ११, ६; अप १, ८, १०;  
 -हसि वैगृ ३, १ : ११; आपध  
 १, ४, २५; २, २७, १८; हिध १,  
 १, १४४; २, ५, २३७; या ४,  
 १८.  
 रहः, श<sup>१</sup>-शील- -लः आपध १,  
 ३, १४; हिध १, १, ८७.  
 रहस्य, स्या- पा ४, ३, ५४;  
 -स्यम् कौय २, ७, १७<sup>०</sup>; शांगृ  
 २, ११, १३<sup>०</sup>; आपध १५, ३;  
 माय १, २३, २१<sup>०</sup>; वागृ ७,  
 १७<sup>०</sup>; वैगृ ३, १९ : ८; गौध  
 २, ४, १; -स्यानि द्राश्रौ १२,  
 १, ३५<sup>०</sup>; कप्र ३, ९, २<sup>०</sup>;  
 -स्यासु साअ<sup>१</sup> १, ५८९; २, १-९;  
 -स्ये वागृ ७, १८<sup>०</sup>; वृदे ६,  
 १२९<sup>१</sup>; उनिस् ६ : १<sup>१</sup>; -स्येषु  
 वाध ५, ४<sup>१</sup>.  
 रहस्य-प्रायश्चित्त- -त्तानि  
 विध ५५, १.  
 रहस्य-ब्राह्मण- -णम् निसू २,  
 ४ : २२; ३०; ४, १२ : ३५;  
 -णे निसू २, १२ : १२; ५, २ :  
 १४; ५ : ३४.  
 रहस्य-मन्त्र-प्रयोग- -नो  
 माश्रौ ४, ८, ४.

a) पाभे. वैप १ रुसे मै ४, ९, १ टि. द्र. । b) = प्रणव- । c) = तन्मात्राऽन्यतम- । d) पाभे. पृ  
 १८३९ d द्र. । e) = ऋच्- (शौ ५, २, ३) । उप. करणे ल्युट् प्र. । f) मत्वो. कस. । g) = समुद-विशेष- ।  
 h) = ऋपि-विशेष- । i) पृथिवी-, नदी- । j) वैप १ द्र. । k) = लोक-विशेष- । l) धा. अर्थः ? ।  
 m) <✓रम् । n) आपध. पाठः । o) = उपनिषद्- । p) = ऋग्-विशेष- । q) = ऐतरेयारण्यक- ।  
 r) = [सामवेदीय-] आरण्यक- । s) = प्रायश्चित्त-विशेष- ।

रहस्य-मर्यादावचन-व्युक्त-  
मण-यज्ञपात्रप्रयोगा (ग-अ)भि-  
व्यक्ति- -क्तिपु पा ८, १, १५.

रहस्य-विद्- -वित् वौध २,  
८, ३.

रहस्ये(स्य-इ)ष्टि- -ष्टि: वौश्रौ  
२८, १: ३३; -ष्टया वौश्रौ २८,  
१: ३.

रहस्यो(स्य-उ)क्त- -क्तम्  
वाध २५, २.

रह:संयोग-काम्या- -म्यया  
वृदे ४, ५७.

✓रहाय पा ३, १, १२.

१२-ह- १२- द.

२२ह<sup>०</sup> - (>राह- पा.) पाग ४, ३,  
९२.

रह:क्षित<sup>०</sup> - -त: वाधूश्रौ ४, १०८: ५.

रहूगण<sup>०</sup> - पाग ४, १, १०५<sup>d</sup>; २,  
१११; -ण: ऋअ २, ९, ३७;  
-णानाम्<sup>०</sup> आश्रौ १२, ११, १.

३राहूगण<sup>०</sup> - -ण: ऋअ २, १, ७४;  
वृदे २, ४६; शुअ १, १८०; साध;  
-णा: वौश्रौप्र ११: २<sup>f</sup>.

राहूगण्य- पा ४, १, १०५; -०ण्य  
आश्रौ १२, ११, १.

२राहूगण- पा ४, २, १११.

रहोगण<sup>०</sup> - (>राहोगण्य- l >  
राहोगण- j).

✓रा (वधा.) पावा. अदा. पर. दाने,  
फ़राति अत्र ४८, १३; निघ  
२, १४<sup>b</sup>; ३, २०; फ़रास्व, >  
स्वा आश्रौ १, ७, ८; शाश्रौ;  
काश्रौ ७, ५, २; शुअ १, २६४<sup>१</sup>;

शुप्रा ४, १४७<sup>१</sup>.

ररते ऋप्रा ९, ४५<sup>१</sup>; रिरीहि कप्र  
२, ४, ११; अत्र ४८, १२<sup>१</sup>;  
निघ ३, १९<sup>१</sup>; ररीध्वम् वौश्रौ  
१३, ३९: १२<sup>१</sup>; पावा ६, १,  
४५.

फ़ररिम् > मा ऋप्रा ७, ५४;  
८, ३५; शुप्रा ३, १२९; फ़रासति  
अप ४८, १३; निघ ३, २०;

रासत् या १२, १८<sup>१</sup>कृ;  
रासताम् अप १, ११, ४<sup>१</sup>कृ;

फ़रासन्ताम् आश्रौ १, ९, ५;  
शाश्रौ; रासन् शाश्रौ १०, ७, ७<sup>१</sup>कृ;  
अरासत शाश्रौ १५, २४, १<sup>१</sup>कृ.

फ़राण, णा<sup>०</sup> - -ण: आपमं १,  
४, १५; ११, १; आम्रिय;  
या २, १२<sup>१</sup>कृ; शुप्रा ३, १२९;  
-णा वाश्रौ १, ४, ४, ४१; आपमं  
२, ११, ११; आम्रिय २, १, ५:  
१६; भाग १, ६: ७; कौस्  
१०६, ७.

फ़ररिस्- -वान् या ४, २५<sup>१</sup>कृ.

फ़रात, ता- -तम् वौश्रौ ७, ४: १४;  
-ताम् आपम ३, ११.

रात-हृव्य<sup>०</sup> - -व्य: आश्रौ २,  
११, १२<sup>१</sup>कृ<sup>१</sup>; शाश्रौ ३, ६, २<sup>१</sup>;  
ऋअ २, ५, ६५<sup>१</sup>.

राति<sup>०</sup> - पा ३, ३, ९६; पाग ४, १,  
४५; -फ़तय: आश्रौ ६, २, ६;  
शाश्रौ; -तये भाग २, २४:  
१२; -फ़ति: काश्रौ १७, १२,  
१५; आपम ६, ९<sup>१</sup>;  
या १२, १७<sup>१</sup>कृ; ३९<sup>१</sup>कृ;

-तिना आपम १२, १४<sup>०</sup>;  
-फ़तिभि: आपमं १, ११, ४;  
वौग १, ९, ३; -तिम् अप १,  
३२, ७; -ते: वौश्रौ १७, ४०:  
१८; -फ़तौ शाश्रौ १, ६, २;  
आपम २४, १२, ६.

राती- पा ४, १, ४५.

राति-कुल- -लेषु आम्रिय १,  
१, ४: १८; हिय १, ७, १४.  
राति-पा (<सा) वृ<sup>०</sup> - पाच:  
शाश्रौ ८, २१, १<sup>१</sup>कृ.

राका<sup>०</sup> - पाठ ३, ४०; -का वौश्रौ  
२४, २०: १०; ११; निस्;  
या ११, २९<sup>२</sup>; ३०<sup>१</sup>कृ; -काम्  
फ़आश्रौ १, १०, ६; ७; ५, २०,  
६; शाश्रौ; या ११, ३१<sup>१</sup>कृ;  
-काया: शाश्रौ ८, ७, १४;  
१४, ५७, ९; आपम १; -कायाम्  
अप १, ७, १; -फ़कायै वौश्रौ  
८, २२: ७; १२, ४: २०;  
भाश्रौ; -फ़के शाश्रौ १, १५,  
४; हियौ.

राका-सिनीवाली- .लीभ्याम्  
शाश्रौ ९, २८, २; -त्यो: ऋअ  
२, २, ३२; वृदे ४, ८७; -त्यौ  
शाश्रौ १, १५, ३; हियौ २, ५,  
१०.

राक्ति- १२क- द.

राक्य- रक- द.

राक्षस- प्रमृ. ✓रक्ष द.

?राक्षे(?)ति शैशि २१३.

राक्षोघ्न-, भाम्नेय-, ण्नी-  
✓रक्ष द.

a) भोज: यनि. इति, वामन: वह- इति च (तु. पागम.) । b) व्यप. । c) वैप १ द. । d) रहोमण-  
इत्यन्य: (तु. पागम.) । e) बहु. < राहूगण्य- । f) अपत्ये अण् प्र. (तु. गा. P. प्र. प्र. ) । g) रहू  
वा रहो<sup>०</sup> वेति केनन मूढो. । h) धा. गतौ श्रुति: । i) वैप १ रास्व मा ४, १६ टि. द. । j) धा.  
वाच्यता श्रुति: । k) वैप १ निर्दिष्टानां ममावेश: द. । l) पागे. वैप १, २५५६d द. । m) = अवि-विशेष- ।  
n) फ़ि: इति पाठ: ? यनि. शोध: (तु. ऋ १, ११७, १) । o) वैतु. मुद्रशैलानामय: < ✓रम् इति ।

√राख पाधा. भ्वा. पर. शोपणा-  
लमर्थयोः

? राखन्दी<sup>a</sup> - न्यौ वौश्रौ १६, २३ :  
७<sup>१</sup>.

? राखाटी<sup>a</sup> - द्यौ आपश्रौ २१, २०,  
३; हिश्रौ १६, ६, ४१<sup>b</sup>.

१-३राग- √रजू द्र.

रागक्षति<sup>c</sup> - पा, पाग २, ४, ५९.

राग-दोष- प्रमृ. √रजू द्र.

? रागायान्यै<sup>d</sup> अग्निष्ट १, ३, ५ : ६.

रागित- , गिन्- , गी- √रजू द्र.

√राख पाधा. भ्वा. उभ. सामर्थ्ये.

† राघटी<sup>a</sup> - टी वाश्रौ ३, २, ५, ४३;  
वैताश्रौ ३४, ९<sup>e</sup>.

राङ्गव- प्रमृ. रङ्कु- द्र.

राचित- , तायन- रचित- द्र.

√राजू (बधा.)<sup>f</sup> पाधा. भ्वा. उभ.

दीप्तौ, राजते काश्रौसं २६ : २;

कौशि ६६; नाशि २, ८, ११;

राजति ङाश्रौ ८, २, २१<sup>g</sup>; ९, ५,

५; अप ११, २, ५; ४८, २१<sup>१</sup>;

निघ २, २१<sup>१</sup>; पाशि २६; माशि

१५, ५; राजसि ऋश्र ३, ११<sup>१</sup>.

राजू<sup>h</sup> - राजि<sup>i</sup> लाश्रौ ९, ४, १;

वैताश्रौ ३९, १२; राट् काश्रौ १७,

९, १४<sup>१</sup>; २२, १०, ७<sup>१</sup>; ङाश्रौ

१७, २, ५<sup>१</sup>; १८, ५, २०; १९,

२४, २; २२, १०; २०<sup>१</sup>; २३,

२२; २८, २; वौश्रौ; हिश्रौ १७,

४, ३९<sup>१</sup>; निस् १, ५ : १८<sup>१</sup>; या

१२, ४६<sup>१</sup>; ऋषा १७, ५<sup>१</sup>.

राड्-विराजू<sup>1</sup> - राजोः आश्रौ ९,  
८, २१.

राजन् - जन्तम् वौश्रौ ३, ८ : २७<sup>१</sup>.

राजन्<sup>2</sup> - पाठ १, १५६; पाग ४,

२, १३८<sup>m</sup>; ३, ११८<sup>m</sup>; ५, १,

१२४; १२८; ४, ३८; - ङंजन्

आश्रौ ३, ६, २४; शांश्रौ; आपश्रौ

८, ७, २५; वौश्रौ ८, १९ : १४;

१३, ३२ : १७<sup>m</sup>; १८, ९ : ३१<sup>m</sup>;

वैश्रौ १६, २४ : १०; हिश्रौ

९, ५, २१; लाश्रौ ७, १२,

५<sup>०</sup>; कौश्र १, १९, १०<sup>m</sup>;

वौध २, १, १६<sup>१</sup>; ङुवृदे ३,

१४५; ५, ५५; ८, ५; या ४,

७; ६, ६; १०, ४०; - जनि

आश्रौ ४, ४, ५; ६, ८, १; शांश्रौ;

पावा ४, १, १६६; ८, २ ७०;

- जभिः शांश्रौ १६, १, २५;

आपश्रौ २०, ६, १३<sup>१</sup>; हिश्रौ १४,

२, १६<sup>१</sup>; वाघ १९, ४५; - जभ्यः

या १२, ३६<sup>१</sup>; - ङंजसु वौश्रौ

१७, ४१ : २२; आपमं; विघ

५, १९१; ऋश्र २, ८, १०१; - जा

ङाश्रौ १, १०, ५५; शांश्रौ ३,

१४, २०<sup>१</sup>; ५, ८, ४<sup>१</sup>; काश्रौ;

आपश्रौ १८, १९, ५<sup>१</sup>; वौश्रौ १२,

१५ : १५; हिश्रौ १३, ६, ३०;

या २, ३६<sup>१</sup>; पा ६, २, ६३; - जानः

वौश्रौ १८, १८ : ७५; वाधूश्रौ;

ङंजानः आपश्रौ २०, ३, १;

वौश्रौ; - जानम् आश्रौ ३, ९,

५<sup>१</sup> × ×; शांश्रौ; काश्रौ ७, २, १;

२५, १३, ३०; आपश्रौ १०, २,

९; ३, ७ × ×; काठश्रौ १४६;

काश्रौसं २७ : १३; २९ : २४;

वौश्रौ ६, १ : १८; १४ : ४ × ×;

भाश्रौ १०, १३, ९; १० × ×; माश्रौ

२, १, ३, ४८; ५२ × ×; वाधूश्रौ २,

२२ : ३; ३, ७१ : ४ × ×; वाश्रौ

३, २, १, २५; ३, ४, १३; वैश्रौ

१२, १ : १२; ३ × × ×; हिश्रौ ७,

१, ७२; २, ३६ × ×; जैश्रौ ३ :

८; ९ : १७ × ×; दाश्रौ ३, १,

१०; २, ३० × ×; लाश्रौ १, ९,

११; १०, २१; वैताश्रौ १३,

१२; १५, १६ × ×; सु १७, ४;

- जाना या ११, २३<sup>१</sup>; - जानौ

ऋश्र २, ५, २७; ९, ११०; वृदे;

- ङंजानौ आश्रौ ६, १, २; ८,

२, १६; शांश्रौ ९, २, ५; १२,

१०, ५; - ङः आश्रौ २, ९, ६; ३,

६, २४<sup>१</sup>; शांश्रौ; काश्रौ २०, १,

११; वैताश्रौ १५, ३<sup>१</sup>; हिघ १,

५, ९६<sup>१</sup>; या २, ३; ९, १०; ११,

१२<sup>१</sup>; पावा ४, १, १; १३७;

- ज्ञा आश्रौ ५, १९, ५<sup>१</sup>; शांश्रौ;

- ज्ञाम् आश्रौ १, ३, ४; १२, १५,

४; वाधूश्रौ; आपघ १, १८,

२८<sup>१</sup>; - ङि गौघ १६, ३२;

ऋश्र २, १०, ३३; वृदे ७,

३५; - ङे आश्रौ ९, ३, ९; १०,

६, १०; शांश्रौ १५, १४, ४; २२,

a) परस्परं पाभे. । b) रागान्धौ इति सूको. । c) तु. पाका. । व्यर. । d) पाठः ?

( तु. पृ ८६२ d टि. सपा. पाग २, ६, २३ कामायेन्द्रियाय इति पाभे. ) । e) शोघः पृ २०१७ k द्र. ।

f) या २, ३; १२, ४६ शौच २, ३६ पा ३, २, ६१; ६, ४, १२५; ८, २, ३६ परामृष्टः द्र. । g) पाभे.

वैप १ राजति मां ३६, ८ टि. द्र. । h) वैप १ द्र. । i) शेषं टि. द्र. । j) = एकाह-विशेष- ।

k) = छन्दो-विशेष- । l) ( एकाहयोः ) दस. । m) तु. पागम. । ) पाभे. वैप १, २४९० g द्र. । o) = गीति-

विकार- ( < ऋ ९, ११, ३ ) । p) पाभे. वैप १, ८१२ k द्र. । q) राजयज्ञः इति चौसं. ।

r) परस्परं पाभे. ।

वैप४-तृ-७७

१; आपश्रौ; वैताश्रौ १६, ११<sup>६</sup>.  
 राज्ञी-०ञि वृद्धे ४, २; -०ञी  
 काश्रौ १७, ९, २; १२, १; आपश्रौ.  
 राज-ऋषि- षीन् आमिगृ २,  
 ६, ३; ३६<sup>१</sup>.  
 राजक- पा ४, २, ३९.  
 राज-कर्मन्- -र्मणि विध २२,  
 ४८; -र्माणि अप ४, २, १; १७,  
 १, १; १८<sup>३</sup>, १९, १.  
 राजकर्म-सांख्यसरीय<sup>b</sup>- -यम्  
 रूप १८<sup>२</sup>, २०, १.  
 राजकर्मा(र्म-आ)भिचारिक-  
 -केषु कौसू ३, १५.  
 राज-किल्बिष- -यम् बौध ३, ६,  
 ८.  
 राजकीय- पा ४, २, १६०.  
 राजकीय-क- -कः अप ६७,  
 १, ४.  
 राज-कुमार- पा ६, २, ५९.  
 राज-कुल- -लम् विध ३, ४८;  
 -लात् आप २, ४, २०; -ले  
 वीगृ ४, ३, ९.  
 राजकुल-रक्षण- -णम् शंघ  
 २५१.  
 राज-कृत्वन्- पा ३, २, ९५.  
 राज-कोश- -शः अप १९, १, १३.  
 राज-ऋतु- -तुः शंघ २५३.  
 राज-ऋय- -यः आश्रौ ४, २,  
 १८; -ये लाश्रौ ९, ९, ५.  
 राज-ऋय<sup>c</sup>- > ष्या(य-आ)च-  
 (दि-अ)हः-संख्यान<sup>d</sup>- -नेन  
 आश्रौ ४, ८, १३.  
 राज-ऋय( ऋ > )णी<sup>e</sup>- -णी

माश्रौ २, १, ३, ३०; वाश्रौ ३, १, १,  
 २; २, १, २६; -णीम् माश्रौ २, १,  
 ३, ३३; ३५; ५०; -ण्या माश्रौ  
 २, १, ३, ४७; -ण्याः द्राश्रौ १४,  
 १, १०; लाश्रौ ५, ५, ७.  
 राजऋयणी-पदा(द्-अ)र्ध-  
 -र्धेन माश्रौ २, २, २, १५.  
 राज-ऋध- -धात् गौध १४,  
 १०.  
 राज-ऋष(ण >)णी<sup>f</sup>- -णीम्  
 आमिगृ ३, ५, ५; ७<sup>६</sup>.  
 राज-न(व >)नी- -नी आमिगृ  
 ३, ५, ३; ८; वीषि १, ३; ७; -वीम  
 कौगृ ५, २, ३; ८, १२; आमिगृ  
 ३, ५, ६; १; वीषि १, ४; १७;  
 हिषि २; ८; ४; ३; ९; -व्या  
 हिषि १२; १०.  
 राजगवी-क्षीर- -रे पावा  
 २, १, १.  
 राज-गामिन्- -मि शंघ ३००;  
 बौध १, १०, ३२; विध १७, १३;  
 ३७, २; गौध २१, १०; -मिषु  
 अप ७०<sup>३</sup>, २३, १३; -मीनि  
 वाघ १६, १९; शंघ ३०१.  
 राज-गुरु-माता-पितृ- -तृन् वैध  
 ३, ३, ६.  
 राज-गृह- पाग ४, २, १२७;  
 -हाः<sup>b</sup> वीश्रौ १५, ३; ३; १८,  
 १८; ७; -हान्<sup>b</sup> वीश्रौ १८.  
 १८; १५; -हे वीश्रौ २, ५; २<sup>१</sup>.  
 राजगृहक- पा ४, २, १२७.  
 राज-घ- पावा ३, २, ५५.  
 राज-घातक- -कम् गौध २०, १.

राज-ऋत्र- -त्रे अप ७२, २, ६.  
 राज-जन-संपत्- -कृत्- -कृत्  
 अप २५, २, ३.  
 राज-जाति- > ष्तीय-त्व-  
 -त्वात् निसू ६, २; १९.  
 राज-तसू (: ) अप ६३, ३, ५.  
 राज-ऋण्ड- -ण्डः रूप ७१, १३,  
 २; शंघ ३९२.  
 राज-ऋन्त- पाग २, २, ३१.  
 राज-ऋवि- -वीणाम् अप ६४,  
 ५, १.  
 राज-ऋहितृ- पावा ६, ३, ६९;  
 -तरः काश्रौ २०, १, १३.  
 राज-ऋह-साहस<sup>l</sup>- -सेषु विध  
 ९, २; २२.  
 राज-द्वार- -रे अप ७०<sup>३</sup>, ६, १.  
 राजद्वार-कृत- -तम् विध  
 ४८, २२.  
 राजद्वारिक- -कम् आज्यो  
 ५, ६.  
 राज-द्विज-वृष- -पात् अप ६८,  
 २, ४८.  
 राज-धन- -नम् गौध १०, ४२.  
 राज-धर्म- -र्माः विध ३, १.  
 राज-धानी- -नीषु अप ७१, १८,  
 ५.  
 राजन- 'पा ५, ४, ३८.  
 राजन<sup>l</sup>- -नम् शाश्रौ १६, १४,  
 ७; ८; जैश्रौ २३; ९; जैश्रौका  
 ५५; द्राश्रौ १०, ४, ८<sup>१</sup>; लाश्रौ  
 ३, १२, ७<sup>१</sup>; -ने लाश्रौ ७, ६,  
 २०; निसू ३, १२; १०; ऋत  
 ३, ७, ३.

a) पाठः? राशि इति शोधः ( तु. प्रकरणम्, C., सा [श्री २, ५, १] ) । b) = परिमित-विशेष- । वस.  
 टप. भवार्थे टण् प्र. टसं (पावा ४, २, १३८) । c) वस. । d) वन. > वस. > वन. । e) = [नोमकयणी-]णो- ।  
 f) = जोषधि-विशेष- । पूर. = राज-नोम- । g) मपा. वीषि ३, ४; ७ राजऋषपणीम् इति पाणि. । h) ऋयः ?  
 = राजद्वार- इति शब्दन्वी ? । i) वस. > वस. । j) = नाम-विशेष- । < ऋ ७, २७, १-३ (तु. सा  
 ऐमा २, ३, ४) ।

राजन-रौहिण<sup>१</sup> -णे वाध  
२२, ९; वौध ३, १०, ११; गौध  
१९, १३.

राजन-रौहिणक<sup>२</sup> -के द्राश्रौ  
२, २, ३९; लाश्रौ १, ६, ३५.

राज-नक्षत्र- -त्रम् अप १, १०, ५.

राज-नन्दन- -नः अप ६९, ४, ४.

राजन्य, न्या<sup>३</sup> - पाठ ३, १०००;

पा ४, १, १३७; पाग ४, २, ५३;

फि ७६; -न्यः आश्रौ २, १, ३;

शांश्रौ २, ६, ५; काश्रौ १४, ३,

२०; १५, ५, ३०; १६, १, १७;

२०, २, ८; २२, १, २९; आपश्रौ;

-न्यम् आपश्रौ १२, २४, ५;

१७, १९; ६; ८; वौश्रौ;

-न्यस्य आश्रौ ४, १५, ५;

शांश्रौ २, ३, ६; काश्रौ; -न्या

वाध १७, ७८; शंघ-७२; -न्याः

शांश्रौ १६, १, १६; काश्रौ १५,

८, १९; वौश्रौ २६, १० : १५;

लाश्रौ ९, १, २२; -न्यानाम्

शांश्रौ १, ७, ३; काश्रौ २०, १,

१४; लाश्रौ ९, १०, ४; विध

२४, २८; -न्याम् वाध २०,

३८; -न्याय आपश्रौ २२,

२६, ५; वौश्रौ १२, ९ : ११;

१८, ९ : १०; निसू; -न्यायाः

वाध १७, ४९; -न्यायाम् वाध

१८, २; ५; २१, ४; -न्ये

आपश्रौ १७, २६, १८; १९,

२७, २२; वौश्रौ ९, १३ : २२;

हिश्रौ; -न्येन हिश्रौ १०, २,

३२; वाध १८, ६.

राजन्यक- पा ४, २, ३९;

५३; पावा ४, २, ५२; ६, ४, १६३.

राजन्य-तसु(ः) वैध ३, १३, ३.

राजन्य-त्व- -त्वात् अप ५२,  
८, २.

राजन्य-पुरोहित- -तौ  
काश्रौसं ३० : ८.

राजन्य-वन्धु<sup>४</sup> - -न्धुः लाश्रौ  
८, २, १०; -न्धुनि वौश्रौ २,

५ : १५;

-न्धोः माश्रौ ६,

१, २, २३; वाधूश्रौ ३, ४६ :

१२; वाश्रौ २, १, १, ४९.

राजन्य-बहुवचन- -द्वन्द्व-

-द्वे पा ६, २, ३४.

राजन्य-वध- -धे गौध २२,

१३.

राजन्य-वैश्य- -श्ययोः

आश्रौ २, १७, ७; आपश्रौ १७,

१९, ९; वाध २१, १७; -श्या-

भ्याम् शंघ १३५; -श्यौ आपश्रौ

४, ३, २; १०, ११, ६;

१२, ८; भाश्रौ.

राजन्य-वैश्य-कर्मन्- -र्मा

गौध ६, १८.

राजन्य-व्रत- -तेन वैश्रौ १२,

१३ : १२.

राजन्य-हिंसा- -सायाम्

वाध २०, ३७.

राजन्या(न्य-अ)त्रि-वधयश्च-

वसिष्ठ-वैश्य-शुनक- -कानाम्

माश्रौ ५, १, १, १७.

राजन्या-पुत्र- -त्रः गौध

२८, ३६.

राजन्या-वैश्या- -श्ययोः

वाध २१, ५.

राजन्या-वैश्या-पुत्र-

समवाय- -ये गौध २८, ३८.

राजन्यो(न्य-उ)च्छिष्टा (ए-

अ)शन- -ने विध ५१, ५२.

राजन्-वत्- पा ८, २, १४.

राज-पक्ष- -क्षः अप ६३, ४, ३.

राज-पति- -तिः काश्रौ ५

१३, ११.

राज-पत्नी- -नी आज्यो १३,

१०; -त्नीम् अप ५८<sup>२</sup>, ४, ६;

६३, ४, १; -न्यः वाध १९, ३३.

राज-पथ- पा<sup>१</sup>, पाग ५, ३, १००.

राज-पीडा- -डा अप ६०, १, ४.

राज-पुत्र- पा ४, २, ३९; ६,

२, १३३; -०त्र शांश्रौ १५,

२५, ११; -त्रः आपश्रौ १२,

१६, ४; १८, ३, १४; ४, २;

७, ९; काठश्रौ; -त्रस्य चात्र

३८ : १२; -त्राः शांश्रौ १६,

१, १६; ऋआपश्रौ २०, ५,

१३; २१, १९, १६; वौश्रौ;

-त्राणाम् ऋवौश्रौ १५, १ : १७;

५ : १०; वाधूश्रौ ३, ७९ : २;

वाश्रौ ३, ४, १, १७; -त्रान् काश्रौ

२०, २, १७; वाधूश्रौ ३, ९२ :

५; शंघ ११६ : २८; -त्रैः

आपश्रौ २०, ४, १; हिश्रौ १४,

१, ३८; -त्रौ वृदे ७, १५५.

राजपुत्रक- पा ४, २, ३९.

राजपुत्र-सहस्र- -स्वाणाम्

अप ६२, २, ५.

राजपुत्रा(त्र-अ)पहार- -रे

शंघ ३२१.

राजपुत्रापहार-वत्

शंघ ३२२.

राज-पुत्री- पावा ६, ३, ६९;

-त्री लाश्रौ ९, १०, १; वृदे ५,

५४; -त्रीः आपश्रौ २०, १५ :

८; -त्रीभिः वाधूश्रौ ३, ९० :

२; -त्रीम् वृदे ५, ५४; -श्वः

a) साम्रोः द्रस ।

b) वैप १-द्र ।

c) < ✓राज् ।

d) नाप. पुं. न. (क्षत्रिय-) ।

e) < राजपथ-क- ।

श्राश्रौ १०,८,११; १३.  
 राज-पुर्मस्-मान् वाघ १९,  
 १३.  
 राज-पुरुष-पाग ५, १, १२४;  
 पागवा ७,३,२०; -पः श्राश्रित्य  
 ३,४,४; १६; वौषि ३, ४, १६;  
 गौषि १,४,४; या २,३.  
 राजपौरुष- -पस् श्राज्यो  
 २,६.  
 राजपौरुष्य- पा ५,१,१२४;  
 पावा ७,३,२०.  
 राज-पुरोहित- -तयोः काश्रौ  
 २२,११,१५; -तौ आपश्रौ  
 २२,१०, १५; १३, १०; हिश्रौ  
 १७,४,३८; ५, ३१; लाश्रौ ९,  
 ४,३०.  
 राजपुरोहितयोर्-यज्ञ- -ज्ञः  
 निस् ७,१० : ३१.  
 राज-पूजित- -तस् अप १,४३,  
 १.  
 राज-प्रथमा(म-अ)भिषेक- -के  
 अप ३,१,१.  
 राज-प्रभृति- -तिभ्यः काश्रौ  
 १५,७,१८.  
 राज-प्रेषित- -तः पाग ३, १५,  
 २०.  
 राज-यन्धव<sup>१</sup>- -पैवैः<sup>२</sup> भाग २,  
 १ : १५; हिग २, १६, ८.  
 राज-यन्धवी- -वीः आपमं २,  
 १७, २६१<sup>०</sup>.  
 राज-यान्धव- -पैवैः<sup>३</sup> कौग ४,४,  
 ९; शौग ४, १८, १; पाग २,  
 १४, ४.  
 राज-यान्धवी- -वीः श्राग २,  
 ३, ३<sup>०</sup>; -न्यः नाग २, ७, १<sup>०</sup>.

राज-वाल-धन- -नानि वाघ  
 १६, ७.  
 राज-ब्राह्मण- पा ६, २, ५९.  
 राज-भङ्ग- -ङ्गस् अप ७०<sup>३</sup>, २३,  
 १२.  
 राज-भव्य<sup>४</sup>- -व्यः वाश्रौ ३, १,  
 १, ४५.  
 राज-भृत्- पाग ४, २, ७५;  
 -भृतः वैश्रौ १९, ६ : १३१.  
 राजभृत्- पा ४, २, ७५.  
 राज-भृत्य- -त्यः अप ६८, २,  
 ५५; शंघ २०१; हिघ २, ५,  
 ४९.  
 राज-भोग<sup>५</sup>- > गीन- पावा ५,  
 १, ९.  
 राज-भ्रातृ- -ता काश्रौ १५, ७,  
 १२.  
 राज-महिषी- -न्याः वाघ १९,  
 ३१.  
 राजमहिषी-गामिन्- -मी  
 शंघ ३७७:२१.  
 राजमहिषी-भय- -यस् अप  
 ७१, १७, ७.  
 राज-मात्र- -त्रः शाश्रौ १७, ५,  
 ४; १५, ३; -त्रस् शाश्रौ १७,  
 ५, ३; -त्रस्य निस् ७, १०:१०.  
 राज-मार्ग-रथ-परिवर्तन- -नस्  
 शंघ ३१०.  
 राज-मार्ग<sup>६</sup>- > प-मसूर-पर्यु-  
 पित-कृतलक्षण- -णानि विघ  
 ७२, १८.  
 राज-मुख- -खस् अप ३०<sup>३</sup>, २,  
 ८.  
 राज-मृग्यु- -यवे अप ६४, १०,  
 ४; ७०<sup>३</sup>, १७, ४; ७०<sup>३</sup>, ११,

१०; -त्युस् अप ५०, ३, २;  
 ७, ४; ८, १.  
 राजमृत्यु-कर- -रस् अप  
 ७०<sup>३</sup>, १४, १.  
 राजं-भव्य<sup>५</sup>- -व्यस्य आपश्रौ  
 १३, २४, ८.  
 राज-यक्ष्म<sup>६</sup>- -क्ष्मः अप ११,  
 ३(२); -क्ष्मे कौस् १३, १२.  
 राजयक्ष्म-गृहीत- -तः माश्रौ  
 ५, १, १०, १५.  
 राजयक्ष्म-घ्न- -घ्नस् ऋध  
 २, १०, १६१.  
 राजयक्ष्म-हन्- -हणस् वृदे  
 ८, ६४.  
 राज-यज्ञ- -ज्ञः काश्रौ २२, ११,  
 १३; निस् ७, १० : १; १९; ८,  
 ७ : १; -ज्ञाः वौश्रौ २४, ११ :  
 १; -ज्ञे निस् ७, ५ : ३९; ४१;  
 ६ : १९; १३ : २; ८, ७ : ७;  
 -ज्ञेषु निस् ६, २ : १७; ३ : ३;  
 -ज्ञौ काश्रौ २२, १०, २९.  
 राज-युध्वन्- पा ३, २, ९५.  
 राज-न्य- -यः अप ७२, २, ८.  
 राज-राष्ट्र-भय- -यस् अप  
 ५८<sup>३</sup>, ४, १.  
 राजराष्ट्रभया(य-आ)वह,हा-  
 -हः अप ६४, २, २; -हस् अप  
 ६४, ३, १; -हाः अप ५८<sup>३</sup>, ४,  
 १०; १२; -हौ अप ६४, २, ५.  
 राज(ज-अ)त्विक्-श्रोत्रिया-  
 (य-अ)धर्मप्रतिषेधु(पि-उ)  
 पाध्याय-पितृव्य-मातामह-  
 मानुल-अशुर-ज्येष्ठभ्रातृ-संव-  
 न्धिन्- -न्धिनः विघ ३२, १.  
 राज(ज-अ)र्षि- -र्षयः अप १३,

a) भावे ण प्र. । b) उप. = यान्धव- । c) सग. 'यन्धवैः <> 'यन्धवीः <> 'यान्धवीः <> 'यान्धवैः <> 'यान्धव्यः इति पानि. । d) = राजं-भव्य- । e) पस. उप. = शरीर- (तु. पाका. ) । f) नाप-भेद- । राप्र-न्तादिषु उलं. । g) = शुभराज- । ध्यु. वैप १ धेजुं-भृग्या- टि. द्र. । h) वैप १ द. ।

५, ४; विध २०, २६; वृदे ४, ९८; -र्षिः वृदे ५, ५०; ७, २; -र्षिभिः काश्रौ २०, ३, २; ८; -र्षिणाम् चाश्रौ १५ : ६; ४१ : २५; -र्षीन् आश्रौ १, ३, ४; शंघ ११६ : ३१; वौध २, ५, २७; वृदे ३, ५४; ५, २९; -र्वैः वृदे ६, ५१; -र्षौ वृदे ७, १४७. राज-लक्षण-संपन्न- -न्नाः वैगृ ६७ : ७.

राज-वंश- > °श-ग(त >) ता- -ता आज्यो १३, १०.

राजवंश्य- -श्यानाम् अप ६१, १, १६.

राज-वत् अशा २५, ५१; वैध ३, ११, ७.

राज-वत्- -वति आपध २, २९, ७; द्विध २, ६, २०.

राज-वध- -धः अप ६४, ८, ७.

राज-वाहन- -नम् जैश्रौ ३ : ८; द्राश्रौ १, ३, १<sup>०</sup>; -नस्य जैश्रौ ३ : ४; -नात् जैश्रौका ४४; वैताश्रौ १३, १२; -हने जैश्रौका ४३.

राज-वाहिन्- -ही अप १, ४५, ५.

राज-विनिपिद्ध- -द्धम् विध ५, १३०.

राज-विप्र-स्व- -स्वात् शंघ ३०९.

राज-विश्र<sup>०</sup>- -विशाम् आश्रौ १, ३, ३; वौश्रौ २४, २३ : १<sup>०</sup>८.

राज-विशि(ष्ट >)ष्टा- -ष्टायाः पावा २, १, १.

राज-वी(धि >)धी- -धी अप

५०, ४, २; -धीम् अप ५०, ६, ४. राज-वृक्ष-परि( >)णी<sup>०</sup>- -र्णीम् वौषि १, ४ : ७<sup>०</sup>.

राज-वृद्धि- -द्धिम् अप ६०, १, १.

राज-वेदमन्- -इमनि अप ४, ५, ९; ७०<sup>१</sup>, ६, ९; -इमसु अप ७०<sup>२</sup>, १३, ५.

राज-शब्द- -ब्दम् लाश्रौ ३, १२, ९<sup>१</sup>.

राज-शासन-प्रतिषेध- -धे शंघ ३१६.

राज-श्रोत्रिय-गो-ब्राह्मण-व्यसन- -ने विध ३०, २३.

राज-श्रोत्रिय-प्रव्रजित-कितव-तस्कर-पराधीन-घ्नी-त्राल-साह-सिका(क-अ)तिवृद्ध-मत्तो (त-उ) न्मत्ता(त-अ) भिदास्त-पतित-क्षुत्तृष्णार्त-व्यसनि-रागान्ध- -न्धाः विध ८, २.

राज-संयोग- -गात् या ९, ११.

राज-संवृत्- -वृताम् अप ६४, ८, ४.

\*राज-सनि- -नि वैगृ ५, ४ : २४.

राज-सर्पव- -पः विध ४, ३; -र्षैः अप ३६, ८, ३.

राज-साक्षिक<sup>०</sup>- -कम् विध ७, २; ३.

राज-सामन्<sup>०</sup>- -म निसू ७, ५ : २०; -मसु निसू ७, ५ : ३३; -मानि निसू ७, ५ : १७.

राज-सायक- -कः अप ५२, ५, २.

राज-सूय, या<sup>१</sup>- पा ३, १, ११४; पाग २, ४, ३१<sup>१</sup>; -यः काश्रौ १५,

१, १; आपश्रौ १८, २२, २०; वौश्रौ; -यम् शाश्रौ १५, १२, १; २०, १; आपश्रौ २२, २५, १०; १५; वौश्रौ; -यस्य आपश्रौ १०, २६, ८; भाश्रौ १०, १७, १५; -याः आश्रौ ९, ३, १; ४, १; वाश्रौ ३, ३, २, २८<sup>१</sup>; चाश्र १५, ११; -यात् माश्रौ ५, २, ७, १; -र्षयाय वौश्रौ १२, ८ : ६<sup>१</sup>; १६; ९ : ७; -ये शाश्रौ १५, २०, १; १६, १८, १; काश्रौ ७, ३, ३; आपश्रौ; -येन आश्रौ ९, ९, १९; शाश्रौ १५, १२, १; आपश्रौ; -येषु वैताश्रौ ४०, ४.

राजसूय-गण- -णाभ्याम् वौश्रौ १२, १० : ४.

राजसूय-याजिन्- -जिनः काश्रौ १५, १०, २३; निसू ७, ५ : ३४.

राजसूय-वत् आपश्रौ १९, ९, १२; १०, २; हिश्रौ २३, १, ४९; ५२.

राजसूय-विध<sup>०</sup>- -धेन लाश्रौ ८, ११, ७.

राजसूय-सोम- -सैः काश्रौ १४, १, ७.

राजसूय-हविस्- -विभिः वौश्रौ २६, ३ : १९.

राजसूया(य-अ)भिषिक्त- -क्तः वौश्रौ १८, २ : ९.

राजसूया(य-अ)श्वमेध- -धाभ्याम् अप २३, १४, २.

राजसूयिक<sup>१</sup>- -कः वौश्रौ ९,

a) अथैतद्वाजवाहनम् इत्यस्य स्थाने लाश्रौ १, २, २३ दक्षिणमनह्वाहम् इति पाभे. । b) उप. = वैश्य- ।

c) पाठः ? °जा वि° इति शोधः (तु. भवस्वामी संस्कर्तुः टि. च) । d) = श्रोपधि-विशेष- । पस. > वस. । e) पाभे.

f) सपा. द्राश्रौ १०, ४, १० राज्यशब्दम् इति पाभे. । g) वस. । h) = साम-विशेष- ।

i) वैष १ द्र. । j) तु. पागम. । k) विप. ( २अप्- ) । पाभे. वैष १ राजस्वः मा १०, १ टि. द्र. ।

l) तस्येदमायर्थे ठक् प्र. ।

१८:४; २५, १३: २४; -कात्  
बौध् २४, १०: १२; -कानि  
हिथौ १३, ५, ३५; -केषु हिथौ  
१३, ३, ६.

राजसूयिकी- -कीभिः  
काट् ४४, ३.

राजसूये(य-इ)ष्टि-पशुबन्ध-  
-न्धानाम् हिथौ १३, ३, ९.

राज-सेवक- -कम् कप्र १, ६, ७;  
-कान् विध ८२, २६.

राज-स्त्री-दर्शन- -नम् शंघ  
१२.

राज-स्थली-(>°लक- पा.)  
पाग ४, २, १२७.

राज-स्नातक- -कयोः वाध १३,  
५९.

राज-स्व- -स्वम् वाध १६, १८.

राज-हंस-प्रतीकाश- -शम् अप  
६८, १, ३४.

राजा(ज-आ)क्रोशक- -कः शंघ  
३७७: २१.

राजा(ज-आ)चार्य- -र्यौ गौघ  
११, ३४.

राजा(ज-आ)ज्ञा-कारिन्-  
-रिणाम् विध २२, ५२.

राजा(ज-आ)तङ्क- -ङ्कम् विध  
१४, ४.

राजा(ज-आ)य(दि-अ)र्थ-  
-र्थम् पावा २, १, ६८.

राजा(ज-अ)धिकरण- -णे विध  
७, ३.

राजा(ज-अ)धिहृद- -ढः अप  
७२, २, ८.

राजा(ज-अ)धीन- -नेभ्यः आपध  
२, २५, १४; हिथ २, ५, १९४.

राजा(ज-अ)भय- -यम् अप ३५,  
२, १०.

राजा(ज-अ)भिद्रोह- -हात् शंघ  
२५५.

राजा(ज-अ)भिपेक- -कः आपधौ  
२२, २८, २५; हिथौ २३, ४, ६६;  
-के विध ९९, १६; -केण वाध  
२, ४९.

राजा(ज-अ)मनुष्य-पूर्(र्व> )  
र्वी- -र्वा पा २, ४, २३.

राजा(ज-अ)र्थ- -र्थे वाध २०, २७.

राजा(ज-अ)र्षित- -तानाम् हिथौ  
२, १, ५५.

राजा(ज-अ)शक्ति- -क्तेः विध  
५, १७.

राजा(ज-आ)सन्दी- -न्दीम्  
आपधौ १०, ३१, २; बौध्  
६, १०: ७; ८, १९: ३;

हिथौ २४, २, ४३; -न्द्या बौध्  
२१, १२: २७; २८; -न्द्याः

काथौ २६, २, ३२; आपधौ १५,  
५, ७; ६, १०; वैथौ १३; ८: ७;

भाथौ ११, ५, ८; ६, ८; हिथौ  
२४, २, १०.

राजा(ज-अ)हः-सखि- -खिभ्यः  
पा ५, ४, ९१.

राजा(ज-आ)हार- -रः अप्राय  
६, ४.

राजे(ज-इ)ङ्वाकु-प्रभृति- -तयः  
अप १३, ५, ४.

राजो(ज-उ)पसेवा- -चया बौध  
१, ५, ८४.

राजो(ज-उ)पसेविन्- -विनाम्  
आज्यो ५, ६१<sup>b</sup>.

राज्य<sup>b</sup>- पा ५, १, १२४; १२८;  
-ज्यम् काथौ ५, १३, ११; आपधौ

१८, १२, ९१; २२, १०, २०;  
बौध्; पा ६, २, १३०; -ज्यस्य

धुम् ३, १४: ८; -ज्यानाम् शोधौ

१५, १२, १३; -ज्यानि शोधौ  
१६, २, ३२; -ज्याय शोधौ १७,

१६, ११; आपधौ ६, १४, ७१;  
२०, २, १२; बौध्; -ज्ये भाग

२, ५: १३; वृदे ८, २; या २,  
१०; आज्यो ८, ४; -ज्येन वृदे

७, १५७; ८, ४; या २, १०.

राज्य-काम- -मः आथौ १०,  
२, १०; अप ७२, ५, २; -मस्य

काथौ २२, १०, ७; २३, २, ९;  
अशां १७, ३.

राज्यकाम-यज्ञ- -ज्ञः  
निसू ७, ७: ४.

राज्य-क्षयं-कर- -रम् अप  
७२, ६, ५.

राज्य-धी- -धीः अप २६,  
५, १.

राज्य-नाश- -शे अप ६९,  
४, १.

राज्य-भाज्- -भाक् विध  
९०, २५.

राज्य-भ्रंश- -शम् अप ५३,  
५, ४.

राज्य-यदास्-काम- -मस्य  
काथौ ४, ११, २.

राज्य-योग्य- -न्यः अप ६९,  
४, ४.

राज्य-वर्धन- -नम् अप २५,  
२, २.

राज्य-शब्द- -ब्दम् द्राथौ  
१०, ४, १०<sup>c</sup>.

राज्य-हर- -रम् अप ३०<sup>३</sup>;  
१, ७.

राज्या(ज-अ)भिपेक->  
क-गण- -णस्य अथभू ३.

राज्याभिपेकय- -ययम्  
अथ ४, ८.



राज्या(ज्य-ञ)र्थे श्री-ब्रह्म-  
वर्चस-काम-मस्य अशां १७,  
१.  
राज्यो(ज्य-उ)पकरण- णम्  
अत्र ४,२२.  
?राज-जम् शंघ ११६:५६<sup>०</sup>.  
राज-ऋषि-, राजक- प्रमृ. √राज् द्र.  
राजत-, °ती- √राज् द्र.  
राजन्-, १-२राजन- प्रमृ. √राज् द्र.  
राजल<sup>०</sup>- पा, पाग ४,१,११२.  
राजसी- √राज् द्र.  
राज-सूय- प्रमृ. √राज् द्र.  
राजस्तम्भ<sup>०</sup>- नभाः वौश्रौप्र १७ :  
१२.  
राजस्तम्भि<sup>०</sup>- न्भिः वौश्रौप्र १७ :  
८.  
राजायन-( > °नक- पा. ) पाग ४,  
२,५३.  
राजार्थ- प्रमृ. √राज् द्र.  
१राजि<sup>०</sup>- जयः वौश्रौप्र १९ : ५.  
२राजि<sup>०</sup>- पाठ ४,१२५; -जिम् माश्रौ  
१०,५,१४; -जी आपश्रौ १०,  
८,१६; माश्रौ २,१,२,४; हिश्रौ  
१०,२,५.  
राजी->राजी-व, वा<sup>०</sup>- पाग ५, २,  
१३५; -वाः आपश्रौ २२, २०,  
१४; वौश्रौ १८,११:१३; हिश्रौ  
१७,७,२७; शंघ २२४.  
राजीव-पृश्नि<sup>०</sup>- इनयः काश्रौ  
२२,९,१३.  
राजी-वि( न् > )नी- पा ५, २,

१३५.  
राजिका<sup>०</sup>- काम् अप ३५,१,९.  
राजिततायिन्<sup>०</sup>- यिनः वौश्रौप्र ६:२.  
राजितवाह<sup>०</sup>- हाः वौश्रौप्र ३:१५.  
राजेक्ष्वा<sup>०</sup> प्रमृ. √राज् द्र.  
राज्जुकण्ठिन्- रज्जु- द्र.  
राज्जुदाल- रज्जुदाल- द्र.  
राज्जुभारिन्- रज्जु- द्र.  
राज्ञी-, राज्य- प्रमृ. √राज् द्र.  
राणायन- प्रमृ. ३रण- द्र.  
रांत-, राति- प्रमृ. √रा द्र.  
?रात्र- प्रमृ. रात्रि- द्र.  
रात्रि, त्री<sup>०</sup>- पाठ ४,६७; पा ४, १,  
३१; -त्रयः ऋवौश्रौ २४, १० :  
२०; २५, १ : १५; वाधूश्रौ;  
-त्रये शांश्रौ ९,२८,५१; वौश्रौ  
१७,५ : १०; -ऋत्रि शांश्रौ  
९,२८, १०; आम्रिण्; या ९,  
२९; -त्रिः आश्रौ १, २,  
११; शांश्रौ; गौघ २५, १३<sup>०</sup>;  
ऋत्र २, १०, १२७<sup>०</sup>; सात्र १,  
६०९<sup>०</sup>; निघ ५, ३१; या २,  
१८०<sup>०</sup>; -त्रिभिः या १२, २३;  
-त्रिम् आश्रौ २, ३; १५१;  
काश्रौ; आपश्रौ १६, ११, ४१<sup>१</sup>;  
वैश्रौ १८, ९ : ६<sup>१</sup>; हिश्रौ ११,  
४, ५<sup>१</sup>; कौघ ४, ३, २<sup>१</sup>; पाण  
२, १६, ५<sup>१</sup>; अप ४, ५, ४<sup>१</sup>;  
या १४, ४; ८; -ऋत्रिम्  
-त्रिम्<sup>१</sup> वौश्रौ १०, १४ : १;  
अप्राय ४,४; अप ४५, २, १५;

अत्र १९, ५५; -त्रिया ऋवौश्रौ  
३,४ : ८; २४, ३० : ११; माश्रौ;  
-त्रियाः वाधूश्रौ ३, २६ : ३××;  
माशि ११, ५१; -त्रियै आपश्रौ  
१५, १३, ७<sup>३</sup>ऋत्रि; वौश्रौ; -त्रिणु  
शांश्रौ ४, १५, ८; वैश्रौ; -त्री  
ऋशांश्रौ ६, ११, ६; ९, २८, १०;  
काश्रौ ४, १५, ९; ऋपाण् ३, ३, ५;  
४, १५; काण्; अप २:४११; ऋया २,  
१९; ४, ११; -त्रीः आपश्रौ ६,  
२८, ५××; १९, १२, ३<sup>१</sup>; ७<sup>१</sup>; वौश्रौ  
हिश्रौ २३, २, १४<sup>१</sup>; १८<sup>१</sup>; वौषि;  
१, ११ : २<sup>०</sup>; -त्रीणाम् आपश्रौ  
१९, १२, ४; ८; वौश्रौ १४, २१ :  
५१; हिश्रौ २३, २, १५; १९;  
-त्रीभिः वौश्रौ २०, १ : १४;  
तैप्रा ३, ७१; -त्रीम् शांश्रौ १६,  
१८, १५; १८, २३, १८; वौश्रौ;  
शांघ ४, १६, ४<sup>१</sup>; वृदे ५, ७४<sup>१</sup>;  
-ऋत्रीम्-ऋत्री<sup>१</sup> काश्रौ १६, ६,  
२<sup>१</sup>; माण् १, ५, ४; -त्रेः आश्रौ  
४, १३, १; आपश्रौ १८, ९, १०;  
वौश्रौ; या २, १८; ३, १६; १४,  
८; पा ४, १, ३१; ५, ४, ८७; ६,  
३, ७२; पावा ६, ६, ७१; -त्री  
शांश्रौ ७, १४, ८; काश्रौ ४, ७, १६;  
२०, ७, २७<sup>१</sup>; वौश्रौ; वाघ ६, १०;  
१३××; शंघ १९१; ३०४; ३९०;  
वौघ ४, ५, ६; ३०; विघ ४६, ७;  
६०, २××; वैघ<sup>१</sup> २, ५, १; ९, २××;  
गौघ ९, ३७; ४१××; या ३, १५;

a) पाठः ? । = द्वादशभूयन्व्यतम- । अपु. २१९, २४ याजनम् इति । b) व्यप. । c) = पङ्क्ति- ।  
व्यु. ? √राज् इति पाठं. अभा. शक., < √राज्, रज् इति MW. । d) विप. [रेखावती-] वत्सतरी-  
नाप. (कमल-मत्स्य- ) । e) कष. । f) = सर्प-विशेष- । g) वैप १ द्र. । h) तु. St. ।  
i) = इष्टका-विशेष- । j) सपा. ऋत्रिम् <> ऋत्रीम् इति पाठे. । k) = [ उपचारात् ] देवी- । l) पाभे. वैप १  
रात्रिम्-रात्रिम् तै ४, १, १०, १ टि. द्र. । m) पाभे. वैप २, ३ खं. रात्रिण्यै तैआ ४, १०, ४ टि. द्र. । n) ऋत्रि इति  
पाठः ? यनि. शोघः ( तु. शौ ५, ५, १ ) । o) पाभे. पृ ३४७ n द्र. । p) ऋत्रीः इति पाठः ? यनि. शोघः  
( तु. सप्र. मै २, ७, ७ प्रमृ., चौसं. ) ।

४, १८; ६, १९; १४, १८; पाग  
 १, १, ३७; -ञ्या आश्रौ २, २,  
 ६१; शाश्रौ २, ६, ८१; आपश्रौ ६,  
 १, ७१; वौश्रौ; वृदे ५, ७५<sup>०</sup>;  
 -ञ्याः शाश्रौ ६, ११, ६; अप  
 १, २४, १; २; वृदे ८, ४४; अथ  
 १३, ४ (४)१; या ५, २८;  
 -ञ्याम् आश्रौ २, १८, ८; शाश्रौ  
 २, ६, ३; आपश्रौ; लाश्रौ ६, १०,  
 ११<sup>०</sup>; आश्र १, १७, १३१<sup>०</sup>; हिध  
 १, ८, ३८<sup>०</sup>; -१ञ्यै आपश्रौ ६,  
 ५, ६; काश्रौसं ३५ : ९<sup>०</sup>; माश्रौ  
 ४, ३, ४६<sup>०</sup>; वैताश्रौ २२, ४<sup>१</sup>.  
 ? रात्र-त्रम् वाश्रौ ३, ४, १, ४३.  
 ? रात्रा(त्र-ञ्)नुवन्ध-ता- -तया  
 निसू ३, ५ : १४.  
 रात्रि-कर्मन्->मिन्- -मिणः  
 वौश्रौ १५, १९ : १०; १३; २२ :  
 १०; -मिणौ वौश्रौ १५, २२ : ३.  
 रात्रि-कारित- -तः लाश्रौ ९, १२,  
 १६; निसू ८, १२ : २५.  
 रात्रि-कृत- -त्वात् वौध २, ४, २१.  
 रात्रि-नेष्ण- पाठभो २, १२९.  
 रात्रि-चर- -राः अप ५२, १, ३;  
 ७०<sup>१</sup>, ५, ५.  
 १ रात्रि-देवता->त्य, त्या- -स्यम्  
 शुश्र १, १८८; -स्या साभ १,  
 ६०९; -स्याम् शुश्र ४, १९.  
 २ रात्रि-देव(त)>(ता- -ता गोश्र  
 ३, १०, १; -ताम् आश्र २, ४,  
 १२.  
 रात्रि-नामन्- -म या ८, १०;  
 -मानि निष १, ७; या २, १८.

रात्रि-दिव- पा ५, ४, ७७.  
 रात्रि-पर्याय<sup>०</sup>- -यः काश्रौ २०, ८,  
 १४; माश्रौ २, ५, ३, २७; वैश्रौ  
 १७, ४ : ७; ५ : ६; हिश्रौ ९, ७,  
 ४३; ४४; -यम् आपश्रौ ६, ४,  
 १०<sup>१</sup>; माश्रौ ६, ९, ८<sup>२</sup>; -यस्य  
 वौश्रौ २६, २२ : १५; द्राश्रौ ७, ४,  
 ८; लाश्रौ ३, ४, ७; निसू ८, १ :  
 १०; -याः निसू ३, ५ : १७;  
 १८; अप्राय ६, ९; -१यात्  
 द्राश्रौ १५, ३, ३; लाश्रौ ५, ११,  
 ३; -यान् शाश्रौ ९, १९, ४;  
 वाधूश्रौ ४, ३२ : २२; लाश्रौ  
 ६, ६, १५; -ये आपश्रौ १४,  
 ४, १३; -येण माश्रौ २, ५,  
 ३, १२; -येभ्यः वौश्रौ २१,  
 १९ : ५; २६, २२ : ११; -येषु  
 शाश्रौ ६, १३, १३××; काठश्रौ  
 १६६; वौश्रौ २३, १३ : २४;  
 -यैः आपश्रौ १४, ३, ९; २३,  
 १२; वैश्रौ १७, ४ : २; हिश्रौ  
 ९, ७, ३९.  
 रात्रिपर्याय-स्थान- -नम् निसू  
 ३, ५ : २४.  
 रात्रि-भृत्- -भृतः वौश्रु ७ : २०;  
 -भृतम् वौश्रौ १०, १२ : २.  
 रात्रि-यज्ञ- -ज्ञस्य काश्र ७१, १८.  
 रात्रि-श्र(त)>ता- -तया काश्रौ  
 ४, ११, १५.  
 रात्रि-शेष- -पम् आपश्रौ २०, १२,  
 १०; आश्र ३, ७, १; -पे वाघ  
 ४, २५; विघ २२, ३६; गौघ  
 १४, ७; पावा ३, २, ११०.

रात्रि-पा( <ता )मन्- -म लाश्रौ  
 ९, ७, १०<sup>१</sup>; निसू ८, १ : ३०;  
 ८ : २६<sup>१</sup>.  
 रात्रि-संस्तव- -वः वृदे ३, १०५.  
 रात्रि-सत्र- -त्राणि आश्रौ ११, ६,  
 १६; शाश्रौ १३, १४, ९; काश्रौ  
 २४, १, १; वैताश्रौ ४२, १२;  
 १५; -त्रेषु आपश्रौ १९, १५,  
 ७; वौश्रौ १४, २२ : २३; हिश्रौ  
 ११, १, २; २३, ३, २७; लाश्रौ  
 ८, २, १६; १०, ३, २०; निसू  
 ९, ११ : २८.  
 रात्रिसत्र-न्याय- -यः निसू ९,  
 १० : १२; -येन निसू १०,  
 ५ : २<sup>६</sup>; १९.  
 रात्रि-संध्या- -ध्ये शंघ ११६ : ४९.  
 रात्रि-संयन्ध- -न्यात् मौसू १०,  
 ५, १३<sup>१</sup>.  
 रात्रि-सामन्<sup>०</sup>- -म वौश्रौ १६, २५ :  
 १५<sup>१</sup>.  
 रात्रि-सूक्त- -क्तानाम् अप ४, ५, १.  
 रात्रि-स्तनित- -तः अप ६५, २, १०.  
 रात्रि-स्तव- -वम् ऋश्र २, १०,  
 १२७.  
 रात्रि-हुत-शेष- -पम् काश्रौ २०,  
 ५, १८.  
 रात्री-पूर्व- -र्वाणि अप १, ५, ५.  
 रात्री-सूक्त- -क्तेन शाश्रु ५, ५, ९.  
 राश्र्य<sup>०</sup>- -न्याणि अप ४, ४, १.  
 राश्र्य(त्रि-श्र)पाय- -न्यात् निसू ८,  
 ११ : १७.  
 राश्र्य(त्रि-श्र)हस-संय-सर- -रात्  
 पा ५, १, ८७.

a) = [उपचारात्] देवी- । b) = साम-विशेष- । c) पामे. पृ १८७३ k द्र. । d) सपा. आपध १,  
 ३१, १९ निशायाम् इति पामे. । e) पामे. वैप २, ३८. रात्रियै तैश्चा ४, १०, ४ टि. द्र. । f) पामे. वैप १ रात्रियै  
 तै ४, ४, १, १ टि. द्र. । g) पस. । h) वैप २, ३८. द्र. । i) उप. पत्यं वैकल्पिकम् टसं. (पा ८, ३, १८) ।  
 j) सपा. 'त्रिपा' <> 'त्रिसा' इति पामे. । k) रात्र इति पाठः ? । l) 'त्रिशाब्दसं' इति जीमं. प्रमृ. ।  
 m) = रात्रि- पामन्- । n) तस्येदमीयः यत् प्र. ।

रात्र्यु(त्रि-उ)पवास-सः बौध २, ४, १६.  
 रात्र्यु(त्रि-उ)पाय<sup>१</sup>-यम् निसू ९, १: ४९; -यात् लाश्रौ ८, १, १४; -ये लाश्रौ ८, १, १३.  
 रात्र्यु(त्रि-उ)पस-पसोः वृदे ३, १३८.  
 रात्र्यकारिक-कार्य-रथ-द्र.  
 रात्र्यन्तर-प्रन्. रथन्तर-द्र.  
 रात्रीतर-तरायण-रथीतर-द्र.  
 रादले अप ४८, २८.  
 रा(र-अ)देश-१२-द्र.  
 ✓राध्(वधा.)<sup>१</sup> पावा. दिवा. पर. वृद्धौ; स्वा. पर. संसिद्धौ, ऋराधत् आश्रौ ४, ६, ३; शाश्रौ; राधाम शाश्रौ १२, २, १४फं.  
 राध्यति आपध १, १२, १२; हिध १, ४, १३; ऋराध्यताम् शाश्रौ ४, ८, ३०; वीश्रौ<sup>०</sup> १, १२: २६; २८; ३, १५: ५; ७; ९, १९: २४; २६; माश्रौ १, ७, २, २४<sup>०</sup>; वाधूश्रौ २, ११: ७<sup>०</sup>; आप्रिगृ<sup>०</sup> १, ५, ४: ३४-३७; वीश्रौ<sup>०</sup> १, ५, १४<sup>०</sup>××; भागृ<sup>०</sup> ३, ४: ९××; जैगृ १, १२: ६३-६६<sup>०</sup>; कौसू २०, ६××; ५६, ६०.  
 राद्घोति आश्रौ ८, १३, १४; शाश्रौ १०, २०, २; राध्नुवन्ति आश्रौ ८, १३, १४; शाश्रौ १०, २०, २; या ४, ४; माशि ८६फं; ऋराध्नुहि आपश्रौ २०, ३, ४; वीश्रौ १५, ४: १४; अराध्नुत् वाधूश्रौ ३, २१: १; अराध्नुवन् आश्रौ ८, १३, १०.

रात्स्यति आगृ ४, ४, २-४;  
 रात्स्यसि अत्र ११, ३(२)फं;  
 रात्स्यामि वाधूश्रौ ४, २२: ३;  
 रात्स्यामः आश्रौ ८, १३, १०फं;  
 ऋराध्यासम् आश्रौ ८, १४, ६<sup>०</sup>;  
 शाश्रौ; आपश्रौ ४, ३, ४<sup>०</sup>; ८, ४, ३<sup>०</sup>; १३, ६, १२<sup>०</sup>; वीश्रौ ५, ४: ३१<sup>०</sup>; ८, ६: २<sup>०</sup>; भाश्रौ ४, ३, ७<sup>०</sup>; माश्रौ १, ७, २, २४<sup>०</sup>; वाश्रौ<sup>०</sup> १, १, २, ६; वैश्रौ<sup>०</sup> १६, ७: ५; हिश्रौ ६, १, २७<sup>०</sup>; १०, ४, ४६<sup>०</sup>; कौसू ५६, ६<sup>०</sup>; ऋरात्सीत् आपश्रौ २२, १६, ९; हिश्रौ १७, ६, ३३; ऋरात्सुः काश्रौ १२, ४, १८; आपश्रौ; ऋरात्सम् शाश्रौ ४, १२, १०<sup>०</sup>; माश्रौ; ऋरात्सम् आश्रौ ८, १३, १५; १९; आपश्रौ.  
 राध्यते वृदे ८, ९८.  
 ऋराधि आश्रौ १, ४, ९; वीश्रौ १, २१: ४<sup>०</sup>××; वाधूश्रौ २, १२: २<sup>०</sup>; वीश्रौ<sup>०</sup> २, ५, ६७××; भागृ<sup>०</sup> ३, ५: ७××; जैगृ १, १२: ६७<sup>०</sup>.  
 राध्यामसि जैगृ १, २०: २१फं;  
 राधयेत् हिश्रौ १२, ७, ५.  
 ऋराद्-द्दः काश्रौ ४, ८, ७; वीश्रौ २, १४: ९××; वैश्रौ १, ६: २; कौसू ५६, ७; -द्दम् कौसू ५६, ७.  
 राद्धि-द्धिः आश्रौ १२, १०, ४; द्राश्रौ; -द्धिम् आश्रौ १२, १०, ४; ऋराश्रौ १०, ३, ४<sup>०</sup>; ११, २, ३; ऋलाश्रौ ३, ११, ३<sup>०</sup>; ४, २, २; -ऋदीः द्राश्रौ ११, १, ६;

लाश्रौ ४, १, ६.  
 राधर्-धेन कौसू १०६, ७फं.  
 ऋराध-धृत्-धृत् भाशि ५०.  
 राधर्-धः आश्रौ ६, १२, २<sup>०</sup>; शाश्रौ १२, १९, २; ३; आपश्रौ; अप ४८, ९०<sup>०</sup>; निघ २, १०<sup>०</sup>; या ४, ४; ६, २२; -धसः शाश्रौ १८, १८, ७फं; -धसा आपश्रौ १४, १६, १<sup>०</sup>; वीश्रौ ६, ७: २२; भाश्रौ १०, ११, १४; हिश्रौ ८, ४, ४५<sup>०</sup>; १५, ५, १; कौसू; अप्राय ६, १<sup>०</sup>; या ११, २४फं; -धसे आश्रौ ७, ८, ३; १०, ८; वैताश्रौ १६, १७<sup>०</sup>; -धंसा आश्रौ २, ८, ३; काश्रौ; या १४, ३५फं.  
 ऋराधस्-पति-<sup>०</sup>ते शाश्रौ १८, १५, ५; ऋप्रा १३, ३०; उसू ८, १९  
 राधस्-व(त्>)ती-न्यः निसू ७, ४: ५२.  
 राधो-गू(त्>)र्ति-<sup>०</sup>र्तिः वीश्रौ ७, ५: १६फं.  
 राधे<sup>०</sup> अप १, ११, ३फं.  
 राधर्-ध्याः शाश्रौ १५, २७, १फं.  
 राधा अप ५२, ५, ३.  
 राधि-(>धी-पा.) पाग ४, १, ४५.  
 राधीतर-रधीतर-द्र.  
 रा(र-अ)न्त<sup>०</sup> १२-द्र.  
 रान्ध्व<sup>०</sup>-न्ध्या शैशि ३२९.  
 राप्य-<sup>०</sup>रपू.द्र.  
 रासु-भुः या १४, ११.  
 शराम<sup>०</sup>-पाग ४, १, ९६<sup>०</sup>; -मः कप्र ३, १, १०<sup>०</sup>; ऋव २, १०, ११०<sup>०</sup>; -मम् शेष ११६: ४४<sup>०</sup>.

a) उप. = आगम-। b) पा १, ४, ३९; ६, ४, १२३ पावा ६, ४, १२३; ७, ४, ५४ परामृष्टः द्र.।  
 c) परस्वरं पाभे.। d) पाभे. वैप १, १०१५ द्र.। e) परस्वरं पाभे.। f) वैप १ द्र.। g) पाभे. वैप १ वृचः मै २, ३, ४ टि. द्र.। h) = धन-। i) परस्वरं पाभे.। j) वप्रा.। व्यु. ? <√रम् इति प्रायोवादः।  
 k) व्यप.। l) = दाशरथि-। m) = [जामदग्न्य-] परशुराम-।

शरामराष्ट्रकान्तीतान् अत्र ५६, १, ७.  
 रामा(न-अ)रगण- पागम ३६०.  
 रामि- पा ४, १, ९६.  
 शराम->रामा- मा वाध १८,  
 १८; वा १२, १३; -माम्  
 आपथी १५, १२, १३; १७, २४,  
 २; वौश्री; वैश्री १३, १५: २१०;  
 वा १२, १३.  
 शराम, मा- म: आपथी १५,  
 १२, १३; वौश्री ९, १२: २६०;  
 भाथी ११, १२, २०; वैश्री १३,  
 १५: २०; हिथी २४, ५: ७०;  
 काय ६३, १९; काय ४१:  
 २०; विध ७३, २६; -मा  
 जैय २, १: ३७.  
 रामक- क: वाध १८, ४.  
 रामठ- पाठ १, १०१.  
 रामोद- (>दायन- पा.) पाग ४,  
 १, ११०.  
 राम्या- √रम् द्र.  
 रायत्- √रै द्र.  
 रायस्- प्रम्. रै- द्र.  
 राराक-, क्य- राराक- द्र.  
 राचण- √रु द्र.  
 रावणि- (>ग्नायन- पा.) पाग २,  
 ४, ५९; ६१.  
 √राय् √राय् टि. द्र.  
 शरशि- पाठ ४, १३३; पाग २,  
 १, ५९; -शि: अत्र ३६, १५, १;  
 ४७, १, ११; -शिम वाध २१,  
 २५; शक्रमा ८, २३; २७;  
 -शौ हिथी ३, ८, ६४.

राशि-कृत्- नम् वौश्री १८, ४८:  
 १८<sup>१</sup>; २३, १८: ३९; २६,  
 ३३: १६.  
 राशि-पल्य- न्याणि कौत् २५,  
 २६; -ल्येषु कौत् २१, २.  
 शरशि- -शि: वौश्री १८, ४८: १८.  
 राशि-मराय- चम् जैश्री २२:  
 ५; -चयो: आश्री ९, ८, २२;  
 वैताश्री ४०, ३; -चौ शाश्री  
 १४, ३९, १; वौश्री १८, ४८: १७.  
 राशि-मरायु- न्यू आपथी २२,  
 ११, १४.  
 राशि-वैराज-सं(ज्ञा>)ज्ञ-  
 -ज्ञयो: जैश्रीका २०.  
 शरशि- -शि: वैश्यो १३; -शौ  
 आमिथ २, ५, ४: १०.  
 राष्ट्र- पाठ ४, १५९; पाग २, ४, ३१;  
 -ष्टम् शाश्री १४, ५०, १; काश्री  
 ५, १३, १<sup>३</sup>; आपथी; -ष्टस्य  
 वौश्री १७, ४१: २१; निस्  
 ५, १२: ९; आपमं; -ष्ट्याणि  
 आपथी ५, ७, १७; वौश्री;  
 -ष्ट्यात् शाश्री १५, १६, १७;  
 वौश्री १४, १७: २०; कौय;  
 -ष्ट्याय आश्री ४, १२, २<sup>३</sup>;  
 आमिथ १, १, २: ४७; हिथ १, ४,  
 ८; जैय १, १२: ७; -ष्टे शाश्री  
 १२, १७, १<sup>३</sup>; आपथी; -ष्टेण  
 वौश्री १४, १७: ४; ९; १३;  
 आपमं १, ८, ७<sup>३</sup>; -ष्टेषु अत्र ३,  
 ३, ७; ५०, ४, ७; ७१, १५, १;  
 वाध ३, १२.

राष्ट्र-काम- -माय वौश्री १४,  
 १७: १<sup>३</sup>.  
 राष्ट्र-जिवांसु- सु: द्राश्री ३२,  
 १८; काश्री १, १०, १३.  
 राष्ट्र-दा- -दा: आपथी १८,  
 १३, २०<sup>३</sup>; वौश्री १२, ८: ७××;  
 हिथी १३, ५, ११; १३<sup>३</sup>.  
 राष्ट्र-नाश- -नाय अत्र ७०<sup>३</sup>, ११, १९  
 राष्ट्र-पति- पाग ४, १, ८४;  
 -ति: काश्री ५, १३, १<sup>३</sup>.  
 राष्ट्र-पत- पा ४, १, ८४.  
 राष्ट्र-भय- चम् अत्र ५८<sup>३</sup>, ४, ९.  
 राष्ट्र-भृत्- -भृत् वौश्री १७,  
 ४३: ८; आपमं; -भृत: काश्री  
 १८, ५, १६<sup>०</sup>; आपथी १७,  
 १०, २<sup>३</sup>; १९, १२<sup>०</sup>; १९, १७,  
 १८<sup>०</sup>; वौश्री १२, ११: १७;  
 १३: ६; १०, ४६: ११<sup>३</sup>;  
 ५४: १३<sup>०</sup>; १४, १६: २५<sup>०</sup>××;  
 माश्री ६, २, ५, ३२<sup>०</sup>; वाश्री २,  
 २, ४, १३<sup>०</sup>; -भृताम् चाअ  
 ३८: ७; -भृत्तय: आमिथ १,  
 ६, ३: ५८.  
 राष्ट्र-अंश- -अम् अत्र २, ५, २.  
 राष्ट्र-मर्यादा- -दायाम् आपथी  
 ९, १२, ५; वैश्री २०, २५: ७.  
 राष्ट्र-वर्धन- -न: वौश्री १८,  
 १७: ३<sup>३</sup>.  
 राष्ट्र-विद्व- -व: अत्र ६४, ८, ६.  
 राष्ट्र-विभ्रम- -म: वौश्री २२, ८: १.  
 राष्ट्र-संवर्ग- -र्ग: अत्र १९, १,  
 ६.

a) = प्रत्य-विशेष- । b) वैष १ द्र. । c) णम् इति पाठः? यनि. शोधः (हु. आपथी. प्रम्.) ।  
 d) = शद्र- इति भाष्यम् । e) = हृष्य-शुद्धि- । f) = (वेदवाद् द्रापयदां जात-) जाति-विशेष- ।  
 g) ज्वन. । h) शी- इति नृत्तौ. । i) = धान्य-राशि- । नलो. कम. । j) णि इति संस्वरर्तुः टि. । k) = एकाह-  
 विशेष- वा काम-विशेष-वा । l) एकाहयोः द्रस. । m) नाप. (निपादि-) । n) = सपा. तै ४, १२, ३ मे  
 ३, १३, ४ पै १५, १, ७ हु स्याणि इति पाठे. । o) = होम-विशेष- । p) = दृष्ट-विशेष- । q) पाठे. वैष १,  
 २४९५ b द्र. । r) = रूप-वैशेष- परिशिष्टाऽन्वय- इति भाष्य. ।

राष्ट्र-संप्लव- -वम् अप ७१,  
९,४.  
राष्ट्रा(ष्ट्र-अ)वगमन- -नम् कौसू  
१६, २७.  
राष्ट्रीय- पा ४,२,९३.  
राष्ट्रीय<sup>१</sup> -यः माश्रौ ५, १, ७,  
४८.  
राष्ट्र- > ङ्राष्ट्रि, ष्ट्री<sup>१</sup> - ष्ट्रिः  
गोष्ट्र ४, १०, १२; द्राष्ट्र ४, ४,  
१५; -ङ्राष्ट्री आश्रौ ४, ६, ३;  
शाश्रौ ५, ९, ६; १८, १,  
२; ङ्राष्ट्रौ<sup>१</sup> ४, ८९: २४;  
२८; अप ४८, ११४<sup>१</sup>; निघ  
२, २२<sup>१</sup>; या ११, २८; शैशि  
६९.  
✓रास्<sup>१</sup> पाधा. भ्रा. आत्म. शब्दे.  
रासभ<sup>१</sup> - पाठ ३, १२५; -भः  
काश्रौ १६, २, ४; ३, ११;  
वौश्रौ; -भम् आपश्रौ १६, २,  
२१; वौश्रौ; पाष्ट्र ३, १५, ६;  
भाष्ट्र २, ५: ३; -भस्य अशां  
१५, ५; -ङ्राश्रौ अप ४८, ९४;  
निघ १, १५.  
रासभ-करभ<sup>१</sup> - पाग २, २, ३१.  
रासभे(भ-इ)न्द्र- न्द्रेण अप १,  
३१, ८.  
रासभे(य >)श्री<sup>१</sup> - श्री शुभ  
२, ४६.  
रासायनि- २रस- द्र.  
रा(स्न>)स्ता<sup>१</sup> - पाठ ३, १५;  
-ङ्रास्ता काश्रौ २, ७, १; १६,  
३, २९; २६, ५, ३; आपश्रौ;

-स्ताम् आपश्रौ १५, ३, ३; १६,  
५, १; वौश्रौ; -स्तायाः आपश्रौ  
१६, ५, २; माश्रौ ६, १, २, १०;  
वाश्रौ २, १, १, ३८; हिश्रौ ११,  
१, ५६  
रास्ता-व<sup>१</sup> -वम् काश्रौ ९, २, ५.  
रास्ता-वत्- > वत्-परिशीवा- >  
वित्<sup>१</sup> -वि वौश्रौ ७, ६: ३६.  
रास्ता-संधि- -घिषु वौश्रौ १०,  
५: १८.  
रास्व<sup>१</sup> - > स्विन्<sup>१</sup> - स्वी या ६,  
२१.  
रास्विन<sup>१</sup> - नः निघ ४, ३१; या ६,  
२११; -नस्य या ६, २११.  
राहक्ष, क्षि<sup>१</sup> ति<sup>१</sup> - पां, पाग २, ४,  
५९<sup>१</sup>.  
?राहस- -सम् गौपि २, ४, ७.  
राहु<sup>१</sup> - पाठ १, ३; -ह्वे आमिष्ट्र  
२, ५, १: २०; ३१; -हुः वैष्ट्र ४,  
१३: ३; जैष्ट्र २, ९: २०; कौसू  
१००, २१; अप ५१, १, ४;  
५२, ११, ५××; -हुणा अप  
७०<sup>३</sup>, ११, ४-६; -हुम् वैष्ट्र १,  
४: १११; जैष्ट्र २, ९: ६; १०;  
शंघ ११६: ४८; वौघ-२, ५,  
२३१; -होः आमिष्ट्र २, ५, १:  
१७; ३६; ४६; वैष्ट्र ४, १४:  
१३; जैष्ट्र.  
राहवि- पा, पाग २, ४, ५९.  
राहु-केतु- -त् आमिष्ट्र २, ५, १: ११.  
राहु-केतु-शनैश्चर- -राः अप ६८,  
१, ४.

राहु-वात- -तः अप ५१, ५, १.  
राहु-चन्द्र<sup>१</sup> - पाग २, २, ३१.  
राहु-दर्शन- -नम् विघ ७७, ८;  
-ने शंघ ४६.  
राहुदर्शन-दत्त- -त्तम् विघ ७७, ९.  
राहुदर्शन-वर्जम् विघ ६४, ७.  
राहु-निपीडित-मण्डल- -लः अप  
७०<sup>३</sup>, ११, ३.  
राहु-पुत्र- -त्राः अप ५२, ७, ५; ८,  
१; ६४, ७, ३.  
राहु(हु-उ)शनस<sup>१</sup> - नसौ अप ५१,  
२, १.  
१-२-राहगण-, ण्य- रहगण- द्र.  
राहोगण-, ण्य- रहोगण- द्र.  
राह्य- २रह- द्र.  
✓रि, री<sup>१</sup> पाधा. दिवा. आत्म.  
श्रवणे<sup>१</sup>, स्वा. पर. हिंसायाम्; तुदा.  
पर. गतौ, कथा. पर. गतिरेपणयो;  
ङ्रि रिति अप ४८, १९.  
ङ्रि रीयते आष्ट्र १, ८, २; काष्ट्र ४,  
६; १३××; निघ २, १४.  
ङ्रि रीणाति निघ २, १४; या १४,  
२४; ङ्रि रीणाः आश्रौ ८, ३, २७;  
शाश्रौ १२, १६, १; वैताश्रौ ३२,  
३०.  
रीति<sup>१</sup> - त्तिः आपश्रौ ५, २३, ९१;  
-तिम् आपश्रौ १७, ६, ७; ९;  
१९, १४, ११; १२; हिश्रौ २३,  
३, ९; १०.  
रीति-वाद- -दः आपश्रौ १६,  
२१, ९; वैश्रौ १८, १६: ४२;  
हिश्रौ ११, ७, १०; वौश्रु ६: १९

a) वैप १ द्र. । b) विप., नाप. ( तु. नृ- > नारि, री- ) । c) = वडवा । d) ईस्वर-  
नामन्. । e) ✓राश इति [पक्षे] BPG. । f) तु. पागम. । g) = ऋव्- । साऽस्यदेवतीयप् ढक् प्र.  
उसं. ( पा ४, २, ३३ ) । h) मत्वर्थीयो वः प्र. ( पावा ५, २, १०९ ) । i) = रास्ता-व- । j) भाप. । व्यु. ?  
✓स् वा ✓स् वेति ? । k) = स्तोत्र- । मत्वर्थीयः प्र. । l) व्यप. । व्यु. ? । < रह-क्ष L, क्षि/त-  
इति पागम. । m) रौहक्षिति- इति पाका. । n) व्यप. ( पाग. ), नाप. ( प्रह-विशेष- ) । o) उप. = शुक्र-ग्रह- ।  
p) पा ७, ३, ३६ या १४, २४ परामृष्टः द्र. । q) चवणे इति P.W. ।

रीती ✓भू>रीती-भूत<sup>०</sup>- -नाः  
पाठ ३, १०, २३.

ऋरीत्वा(ति-आ)प्<sup>०</sup>- -त्यापा  
आश्रौ १, ९, १; शाश्रौ १, १४,  
५; उस् ८, २९.

रेरिवन्<sup>०</sup>- -वा वौष्ट २, ५, २४.

ऋरिक्त्वा<sup>०</sup>- -क्वा अप ४८, ८३; निघ  
३, २४.

रिद्धा<sup>०</sup>- पावाग ८, २, १८.

✓रिख् पाधा. भ्रा. पर. गतौ > रेखा<sup>०</sup>-  
पाग ३, १, २७; ३, १०४; पावाग  
८, २, १८<sup>६</sup>; -खाः वैश्रौ २०,  
३९:१०; हिश्रौ १, ६, ५७; वैष्ट १,  
९:४; ६; आपध २, १, १३<sup>३</sup>;  
-खाम् कौष्ट १, ३, २; जैष्ट १,  
१:२; २, २:२; -खायाम्  
शंघ ५४; -खासु आमिष्ट २, ६,  
१:८.

?रेखान्तरापुराराणि अप ५३,  
१, ४.

✓रेखाय पा ३, १, २७.

✓रिङ्ग् पाधा. भ्रा. पर. गतौ.

✓रिच् पाधा. रुधा. उभ. विरेचने; चुरा.  
उभ. वियोजनसंपर्चनयोः; ऋारि-  
णक् ऋप्रा २, ७७; उस् २, ७.  
अरिचन् या २, १९; २०; ऋारिक्  
माष्ट २, ७, ५; या २, १९; २०;  
३, ६; ऋप्रा.  
रिच्यते या ३, २.

रिक्त, क्ता- -ऋक्तः आपध १, १०,  
८; हिघ १, ३, ३७; -क्तम्  
आपधौ १२, ११, ५; माश्रौ  
१, २, २, ९; २, ५××; -क्ताः गो  
२, २२; आज्यो<sup>१</sup> ६, ८; १०;

-क्ताम् काश्रौ १७, १, २०;  
आपधौ; आज्यो ६, १२<sup>१</sup>;  
-क्तायाम् आज्यो ७, ४<sup>१</sup>; -क्ते  
पा ६, १, २०८.

रिक्त-कुम्भ- -म्भम् कौस् ८४,  
९; -म्भान् अप १, २६, ४<sup>१</sup>.  
रिक्त-गुह- पा ६, २, ४२.

रिक्त-पाणि<sup>१</sup>- -णिः अप २८,  
१, ४; आपध १, १५, ७; हिघ १,  
४, ६६.

रिक्ता-पर्वन्<sup>६</sup>- -र्वणी वैष्ट २,  
१२:१.

रिक्थ<sup>०</sup>- पाठ २, ७; -क्थम् अप  
४८, ९०<sup>१</sup>; शंघ २७१; २९२;  
वौघ; -क्थयोः शाश्रौ १५,  
२७, १<sup>१</sup>; -क्थस्य वाध १९,  
३६; वृदे ४, १११.

रिक्थ-ऋय-संविभाग-परिग्रहा-  
(ह-अ)धिगम- -मेपु गौघ १०,  
३८.

रिक्थ-आहिन्- -हिभिः विध  
१५, ३३; -ही विघ ६, २९.

रिक्थ-पिण्ड- -ण्डौ शंघ २९१.

रिक्थ-पिण्डो (एड-उ)दक-  
-कानि शंघ २९९.

रिक्थ-पिण्डो (एड-उ)दक-यज्ञ-  
-ज्ञेषु शंघ ८५.

रिक्थ-प्रतिषेध- -धे या ३, ५.

रिक्थ-भाग- -नाः शंघ २७१;  
२७८.

रिक्थ-भाज्- -भाक् गौघ २८,  
२९; -भाजः वौघ २, २, ३१;  
गौघ १२, ३७; २८, ३३.

रिक्थ-मूल<sup>१</sup>- -लम् शंघ २७०.

रिक्थ-लोभ- -भात् वाध १७,  
६५.

रिक्थ-विच्छित्ति- -त्तिः सुघप  
८८:२.

रिक्थ-विभाग- -गः शंघ २७०.

रेक्णस्<sup>०</sup>- पाठ ४, १९९; -ऋक्णः  
अप ४८, ९०; निघ २, १०; या  
३, २६; ऋप्रा १६, ३३.

रेक्णस्-च(त>)ती- -ती या  
११, ४६<sup>१</sup>कृ<sup>०</sup>.

✓रिङ्ज्, रिङ्जति अप ४८, २<sup>१</sup>.

✓रिघ<sup>१</sup>, रिध्यते, रिध्यति आज्यो ५,  
१०.

✓रिप्<sup>०</sup>>ऋरिप्- रिपः<sup>३</sup> अप ४८,  
७२; निघ १, १.

रिपु<sup>०</sup>- पाठ १, २६<sup>०</sup>; -पवे माष्ट २,  
१६, ३<sup>१</sup>; -ऋपुः आपधौ ६,  
१७, १०; माश्रौ ६, ४, ४;  
हिश्रौ; -पुणा आपधौ १७, १८,  
१<sup>१</sup>; -पुम् आश्रौ ७, ११, २१<sup>१</sup>;  
-पुन् माश्रौ १, ६, २, १७<sup>१</sup>; अप  
३६, १२, १; -पोः अप ३१,  
९, ४; -पौ विध ३, ७४.

रिपु-त्रय- -यम् विध ३३, १.

रिपु-मित्रा(त्र-अ)र्धसंबन्धि-वि-  
कर्म-दृष्टदोष-सहाय- -याः विघ  
८, ३.

रिपु-संधि-कार्य- -यंम् आज्यो  
८, ५.

ऋरिस्- -स्म् आश्रौ ३, ९, ५<sup>०</sup>;  
आपधौ १९, ८, ११; हिश्रौ २३,  
१, ३८.

रिस्-लेप- -पम् आपधौ ८,  
१६, ८.

a) = पट्टिक-यद्ध- । b) वैप १ द. । c) वैप २, ३३. द. । d) नाप. (चौर-). व्यु. ? < ✓रिच्  
इति दे. । e) = लिङ्गा- । f) = पट्टिक- । g) तु. पागम. । h) सपा. रेखा: <> लेखा: इति पागे. ।  
i) = तिथि-विशेष- । j) वत्त. । k) दत्त. पू. = तिथि-विशेष- । l) = ✓रिप् । m) वैप १,  
२६६५ i द. । n) < ✓रिप् । o) तिष्ठम् इति आन. ।

रिप्र<sup>a</sup>- पाठ ५, ५५; -प्रम् आपथ्रौ  
 ७, ४, ५१; वौश्रौ; या ४, २१;  
 -प्र्राणि आपथ्रौ ९, ३, २२;  
 हिश्रौ १५, १, ७१.  
 ऋरिप्र-वाह<sup>a</sup>- -हः कागृ ४५, ६;  
 मागृ २, १, ८.  
 रेपस्<sup>a</sup>- पाठ ४, १९०.  
 ✓रिफ्<sup>b</sup> पाधा. तुदा. पर. °कथनयुद्ध-  
 निन्दाहिंसादानेषु, रेफत हिश्रौ  
 १, ७, ४०१<sup>d</sup>.  
 ✓रिफ्<sup>c</sup>, रिफ्यते आश्रौ १, ५, १०.  
 रिफित- -तः शांश्रौ १, २, ९;  
 शुप्रा १, १६०; उस् ७, ११;  
 -तम् शुप्रा ४, १९; -तात्  
 शुप्रा १, ३३; -तानि ऋप्रा १०,  
 २३; २३; -ते शुप्रा ४, १९५.  
 रेफ<sup>e</sup>- पाठ ५, ५४; पावा ३, ३,  
 १०८; -फः अप्र ४७, २, ५;  
 ऋप्रा ४, ८६; ६, ८; १२, ४; ८;  
 १३, ३४; तैप्रा २१, १५; ऋत  
 २, १, ८; अप्रा ३, १, १; ३, २;  
 शौच १, ६६; २, २९; ४२;  
 शैशि १९६; २२०; पाशि १४;  
 माशि १०, १; ४; याशि २,  
 ४६; ९४; कौशि ७८; आशि  
 १, १७; नाशि २, २, १५; ३, ४;  
 ४, ७; ५, ४; ६, ३; ६; ७; -फम्  
 शांश्रौ १, २, ९; अप्र ४७, ३,  
 १; २; ऋप्रा १, ४६; ४, २७;  
 ३९; ६९; ६, १७; ११, ४१;  
 शुप्रा ३, ३९; १४१; तैप्रा ५,  
 १०; ८, ६; २०; ९, २०; शैशि

२८७; माशि ८, ९; १०, ३;  
 -फस्य अप्र ४७, २, ४; शौच  
 १, २८; ६४; २, १९; कौशि  
 ७७; पावा ८, २, १९; पाप्रवा  
 ५, ४; -फात् ऋप्रा ६, ४; ४६;  
 तैप्रा १४, ४; शौच १, ७१;  
 १०१; माशि १५; ११४; -फे  
 ऋप्रा १, ९८; १४, २६; शुप्रा  
 ४, ३५; तैप्रा २, ४१; शौच २,  
 १९; माशि ८, ८; ११, १०;  
 १२, ४; याशि २, ४९; नाशि  
 २, २, ६; -फेण ऋप्रा १२, ८;  
 उस् ७, १०; ११; शुप्रा ३, ४९;  
 ७, ९; कौशि ५१.  
 रेफ-ग<sup>f</sup>- -गः माशि ९०.  
 रेफ-नकार( र-आ )दि- -दिः  
 अप्रा ३, २, ३०.  
 रेफ-निमित्त-संशय- -यात्  
 ऋप्रा ११, ७.  
 रेफ-पर<sup>h</sup>- -रः तैप्रा ५, २९; ८,  
 ७; १६; १४, १९; -रस्य शौच  
 २, १०६.  
 रेफ-पूर्व<sup>h</sup>- -र्वम् ऋप्रा १४, ४०;  
 -र्वयोः तैप्रा १४, ६.  
 रेफपूर्व-क<sup>h</sup>- -काः आशि १,  
 १९.  
 रेफ-प्रकृति- -तिः अप्रा ३, १, १<sup>l</sup>.  
 रेफ-मध्य- -ध्ये अप्रा ३, २, ९;  
 १०.  
 रेफ( फ-ऋ)कार( र-ऋ)कार-  
 पर- -रः ऋप्रा ५, २३.  
 रेफ-लकार- -रौ शुप्रा ४, १४८.

रेफ-लोप- -पः उस् ६, १; ४.  
 रेफ-वत्- -वतः ऋप्रा १४, ३१;  
 -वन्ति माशि ८, ८.  
 रेफ-वर्जम् ऋप्रा ४, ७.  
 रेफ-वर्जित- -ताः आशि ६, ११.  
 रेफ-शकार- > °री<sup>l</sup>- -री  
 माशि ९, १३.  
 रेफ-पकार- -रयोः माशि ९,  
 १३; याशि २, १४.  
 रेफ-संधि- -धयः ऋप्रा ४, २७;  
 -धिम् ऋप्रा १५, १२.  
 रेफ-सहित- -तम् उस् ६, ८;  
 -तान् उस् ६, ७<sup>k</sup>.  
 रेफ-हकार- -रभ्याम् शुप्रा ४,  
 १०२; -रौ शौच ३, ३१.  
 रेफहकार-क्रम-ज- -जम्  
 शौच १, ५८.  
 रेफा(फ-आ)दि- -दिः निस् ८,  
 ६; ४३; अप्रा ३, २, १९.  
 रेफा(फ-अ)उस्वार- -रे माशि  
 १२, ५.  
 रेफा( फ-अ )न्त<sup>h</sup>- -न्तः अप्रा  
 ३, २, २६.  
 ✓रेफाय, रेफायति वैय २, ११;  
 ९; हिय १, १०, ३; आपव २,  
 १४, १३; हिय २, ३, २४.  
 रेफित, ता<sup>l</sup>- -तः माशि ७, ३;  
 -तम्, -ता माशि ८, ८.  
 रेफिन्- -फी आश्रौ १, ५, ११;  
 ऋप्रा १, ७६; ४, २७; ३१.  
 रेफो(फ-उ)द्वय<sup>h</sup>- -यः ऋप्रा ४,  
 २८.

a) वैप १ द्र. । b) ✓रिह् इति [पक्षे] BPG. । c) कथन° इति BPG. PW. । d) सपा.  
 वाश्रौ १, ३, ३, १ रेभत इति पाणे. । e) षर- + डिकः प्र. उमं. (पावा ३, ३, १०८) > \*रिफ- (रेफ-) > यनि.  
 रकारोच्चारणे नाथा. । f) भाप. > नाप. (वैतु. पावा [३, ३, १०८] षर- + हफः प्र. इति, शुप्रा [१, ३९] षर- +  
 एफः प्र. इति, पाउडु [६, २३] ✓रा + हफः प्र. इति) । g) उप. < ✓गम् । h) वस. । i) °ति° समस्त  
 इव पाठः? यनि. शोधः (तु. संस्कृतः टि.) । j) विप. (स्वरभक्ति-) । अर्शाद्यजनन्तात् द्वी. ङीप् प्र. उमं.  
 (पा ४, १, ४१) । k) सं इति Pertsch. । l) इतच् प्र. ।

रेको(क-उ)व(व>)षा<sup>३</sup> - धाम्  
ऋषा ६, ५१.

रेको(क-रुक्)न्मन् - प्मणान्  
नाशि १०, २; आशि ६, १३;  
-प्मणोः ऋषा ४, १५; -प्मलु  
आश्रौ ३, २, १८; ऋत ४, ४,  
१३; शैशि २७४; नाशि २,  
४, ४; -प्माजौ ऋषा ५, ५६.

रेकोम-पर<sup>३</sup> - रः तैषा १३,  
२.

रेकोम-संयोग- नो तैषा  
२१, १५.

रेको(क-रुक्)न्-यकार-भाव-  
-वाव तैषा १५, १; १७, ४.

रिम्(वधा.), ऋरेमति<sup>३</sup> अय ४८, ९;  
निघ ३, १४; रेमत वाश्रौ ३,  
३, ११<sup>०</sup>.

रिन्वते वृद्धे ३, ९६.

रिन्वन्<sup>३</sup> - नवा अय ४८, ८३;  
निघ ३, २४<sup>०</sup>.

रिरेमन् - भन् विघ ४८, ६; वा  
१४, १३.

रिंसत् -, रिंसु- √त्सु. द.

रिङ्(वधा.) पाषा. तुदा. पर.  
हिजायाम् > रेशर्षा<sup>३</sup> - > ष-  
दातिन्<sup>३</sup> - -०रिगः<sup>३</sup> वा ६,  
१४.

रिशाद्- - इत्तः शाश्रौ १२, २,  
१४; २०, २१; - ऋन्दत्तः अय  
४८, ११५; ऋषा ३, ४, १; निघ  
४, ३; वा ६, १४<sup>०</sup>; - इत्ता

आश्रौ ५, १०, २८; शाश्रौ ७,  
१०, ११; - द्राः अषा ३, ४, १.

रिड्य<sup>३</sup> - -श्यस्य अत्र ५, १४<sup>१</sup>.

रि<sup>३</sup> पाषा. म्वा. दिवा. पर.  
हिजायाम्: रिष्यति आपनं  
१, ६, ११; वीर्य १, ५,  
४; अयः रिष्यतः नाय ३,  
२, १३; रिष्यसि आपश्रौ ७,  
१६, ७; रिष्यथः माश्रौ ५, २,  
१३, १; रिष्यथ नाश्रौ ५, २,  
१३, १; रिष्याव वीश्रौ ३,  
१६: २८; भाश्रौ; हिश्रौ १, ६,  
९१<sup>३</sup>; रिष्यतु वीश्रौ २, ५: २६;  
रिष्येत नाय ३, १३, १७;  
वाय १५, १३; रिष्येत्<sup>३</sup> आपश्रौ  
१३, ५, १; वीश्रौ १, ११:  
२७; ६, २३: ४; भाश्रौ २,  
२, ६.

रिष्व आश्रौ २, ५, १७; शाश्रौ  
१२, १५, ४<sup>३</sup>; आपश्रौ; कौत् ३३,  
९<sup>१</sup>; रिषः आपश्रौ ९, १८, १;  
वीश्रौ ८, २०: १२; माश्रौ; रिषन्  
द्राश्रौ ७, ३, ५; रिषम् आपश्रौ  
१, ३, १४<sup>३</sup>xx; वीश्रौ १,  
२: ११<sup>३</sup>xx; भाश्रौ १, ३, १२<sup>३</sup>;  
५, १<sup>३</sup>; वाश्रौ १, २, १, १८<sup>३</sup>;  
हिश्रौ १, २, ३४<sup>३</sup>; २, ७, ५<sup>३</sup>;  
आमिष्ट ३, ८, २: ३०; वीषि  
१, १५: ३९; वाय १४, २३;  
रिषाम् > मा वाश्रौ २, ५, ९;  
आपश्रौ ६, २, २xx; वीश्रौ.

रीरिष्व अषाय ६, १; ऋषा  
९, ५०; भाशि १०; रीरिषु:  
नाय २, १६, ३<sup>३</sup>; रीरिषः  
आश्रौ ३, १४, १३; आपश्रौ  
९, १६, ११xx; २१, ४,  
१; भाश्रौ; वा १०, ७;  
११, ७; रीरिषव आपश्रौ १४,  
१६, १; वाश्रुश्रौ ३, ४: १२;  
हिश्रौ; रीरिषीष्ट ऋषा ९, ४७.

रिषि<sup>३</sup> - रिषः हिश्रौ १०, २, ६५;  
द्राश्रौ ६, ४, ८; वाश्रौ; रिषे  
आश्रौ ६, १२, २; वा १०,  
४५<sup>०</sup>.

रिषि<sup>३</sup> > √रिष्यत्, रिष्यति  
पा ७, ४, ३६; रिष्यथः वाश्रौ  
३, ७, १०<sup>१</sup>; रिष्यथत कौत्  
२, २, ९; शाश्रु २, २, १४; नाय  
१, ७: १२<sup>३</sup>.

रिषि - ष्टे आपय ६, ४.

रिषि-इ- इम् अय ६९, ५, ५.

रिषि<sup>३</sup> - पाठनो २, १, १८९; पाग  
४, २, ८६<sup>३</sup>; - षिः वाश्रुश्रौ २, ९:  
४; पाय ३, १४, १४; नाय १,  
१३, १५<sup>१</sup>.

रिष्व - पाठ १, १५३.

रिषी (<रि)प्व - पतः ऋषा ९,  
४७; - पते नाय २, १६, ३; ऋषा  
९, ५१; - पन्तन् ऋषा ९, ४६.

रेषि<sup>३</sup> - गाय वा १०, ४५; - जे  
आपय २२, १८<sup>३</sup>.

रि<sup>३</sup> (वधा.), रिह् वा १०, ४६.

a) वत्त. । b) घा. अर्थात् वृत्तिः । c) पाषे. पृ २०७७ d) द. । d) = स्तेन- । घा. वीर्यं शक्तिः ।  
हनिष् प्र. (वैतु. वे. <√रम्) । c) रिहा इति मूढो. । f) कर्त्तरि शः प्र. एत्सं. (पा ३, १, १३८) । g) एष.  
<√इ [विदारणे] (तु. PW. प्रन्.) । h) ष्यदासिनः इति हु. तत्र ष्यत्-त्वा इति तदर्थोऽयमहः । i) वेष इ.  
द. । j) पा ७, २, ४८ पराच्छः द. । k) पाषे. वेष २, ३८. रिष्येत् तैषा ३, ७, १३ टि. द. । l) मल्लु ष्यत्  
इति पाठः इति नति. शोधः (तु. सभा. ऋ १०, १७, २०) । m) पाषे. वेष १, १०१८ n) द. । n) षे इति  
पाठः इति नति. शोधः (तु. ऋ ८, २०, १) । o) कर्त्तरि भाषे वा एत् । f) पृ १९६९ n) द. । g) भाव. ।  
r) √रिक् टि. द. । घा. अर्थात् वृत्तिः ।



रिदिह् अप ४८, १२; निघ  
३, १९.  
रिहति निघ ३, १४; रिहन्ति  
या १०, ३९६; रिहन्तु हिश्रौ  
२, ४, २२.  
?रिहा<sup>१</sup> हिश्रौ २, ४, २२१.  
†रिहाण, णा<sup>१</sup> - णा: आपश्रौ ३, ६,  
१; वीश्रौ १, १९: २०; भाश्रौ;  
-णे या ९, ३९१.  
रेरिहत्<sup>०</sup> - हत् शुभ्रा ३, १२९.  
रेहाण- णा: आपश्रौ १२, १७, ३.  
?रिहायस्<sup>१</sup> - या: निघ ३, २४<sup>०</sup>.  
रिहन्<sup>१</sup> - ह्वा<sup>०</sup> अप ४८, ८३१.  
√री, रीति- प्रभृ. √रि द्र.  
√रु<sup>१</sup> पाधा. भ्वा. आत्म. गतिरेपणयो;  
अदा. पर. शब्दे, ऋवत् आश्रौ  
३, ३, १; शाश्रौ ५, १७, ९.  
रीति वैश्रौ १०, १३: १३; हिश्रौ  
४, ३, ५५; अप ४८, ९१<sup>१</sup>; निघ  
३, १४१<sup>१</sup>; या १०, ५; ह्, ह्, ह्  
यात्<sup>१</sup> आपश्रौ ८, ११, २०; भाश्रौ  
८, १३, ८; भाश्रौ १, ७, ५, ३०;  
वाश्रौ १, ७, ३, २२; हिश्रौ ५,  
३, ३८.  
रुचे वीश्रौ १८, ४५: ७.  
रावयन्ति आश्रौ २, १८, १२.  
रोरुयते सु २२, ४; या १०, ४६.  
†रोरुवति आपश्रौ ५, १७, ४;  
हिश्रौ ३, ४, ४८; या १३, ७६;  
रोरुवन्ति अप ७०<sup>३</sup>, ६, ५.  
रव<sup>०</sup> - ऋवम् आपश्रौ १२, १५, ६;

हिश्रौ ८, ४, २१; -वेण वीश्रौ  
१८, १: १५१<sup>१</sup>; वृदे २, ३६;  
४३; -वै: आमिष्ट ३, १०, ४: ६.  
रवण- पाड २, ७४; पाग ४, १,  
११२<sup>६</sup>.  
रावण- पा ४, १, ११२; पा, पाग  
५, ४, ३८<sup>१</sup>.  
रवत्<sup>१</sup> - न्ते आपश्रौ ८, ११, १९<sup>१</sup>;  
२१; भाश्रौ ८, १३, ७<sup>१</sup>; ९; हिश्रौ  
५, ३, ३७<sup>१</sup>; ६, ८, ८.  
रवथ<sup>०</sup> - पाड ३, ११३; -थे वीश्रौ  
५, १०: २४<sup>१</sup>; द्राश्रौ १३, १, १५;  
लाश्रौ ५, १, १३.  
रवमाण- णे शाश्रौ ४, १७, १२.  
रवाण<sup>०</sup> - णे आश्रौ २, १८, १०.  
रुत् - तम् अप ७२, ५, ५; -ते काश्रौ  
५, ६, ३२; कौसू १४१, ३९.  
रुवत् - वति माश्रौ १, ७, ५, २९<sup>१</sup>;  
-वन् वृदे २, ५९.  
रुवथ- पाड ३, ११५.  
रोरवण- णम् या १३, ७.  
†रोरुवत्<sup>०</sup> - वत् वृदे ७, ३२; या  
५, १६६.  
रोरुयमाण- ण: वीध १, ५, ८६;  
या ५, १६; १०, ५.  
√रुंश्, सू पाधा. चुरा. उभ. भापा-  
याम्.  
रुक्-काम- प्रभृ. √रुच् द्र.  
१रुक्त् - पाडवृ ३, ६६.  
२रुक्त्<sup>१</sup> - > (> १रुक्ष्य- L > रौक्ष-]  
पा.) पाग ४, १, १०५; २, १११.

३रुक्ष<sup>१</sup> - क्षा: अप ६३, ४, ९.  
रुक्ष-वाच्<sup>१</sup> - वाक् माशि १२, ६.  
रुक्षक<sup>१</sup> - > रौक्षक- -०क वीश्रौ प्र  
३४: २; -का: वीश्रौ प्र ३४: १.  
रुक्षक-वत् वीश्रौ प्र ३४: २.  
रुण- √रुच् द्र.  
√रुच्<sup>१</sup> पाधा. भ्वा. आत्म. दीप्तावभि-  
प्रीतो च, रोचते आपश्रौ ९, १२,  
९; वीश्रौ; अप ७०<sup>३</sup>, ६, ५; ९, २;  
वाध ३, ६९; ऋरोचन्ते वीश्रौ  
१५, २४: २; आपमं १, ६,  
२; रोचसे अत्र १३, २१;  
ऋरोचत आश्रौ ८, १०, ३;  
शाश्रौ १०, ११, ९; माश्रौ ५,  
१, २, १२; या ७, २३; अरोचथा:  
वीश्रौ २, १६: ४१.  
रुचे माशि २२१; रोचासम्  
जैय १, १८: १५१.  
रोचयते माश्रौ ४, २, ३०;  
रोचयति वीश्रौ १०, ४६: १६;  
रोचयत: वीश्रौ ९, ८: १२;  
रोचय आपश्रौ ६, ६, ८१;  
रोचयेत् वीश्रौ २२, ८: ३४.  
†अरुचत्<sup>१</sup> आश्रौ ४, ६, ३;  
शाश्रौ ५, ९, २५; वीश्रौ;  
अरोचयिष्यत निसू ८, १३: ३९.  
रुचम्<sup>०</sup> - पाड १, १४६; -कम: आश्रौ  
९, ४, १६; शाश्रौ ३, १८, ६१;  
काश्रौ; -कमम् काश्रौ १५, ५,  
२६ x x; आपश्रौ; -कमस्य वीश्रौ  
१०, २२: १०; १५; वैश्रौ १८, १७:

a) पाठ: ? मा २, १६ प्रभृ. रिहाणा: इति पाभे. । b) वैप १ निर्दिष्टानां समावेश: द्र. । c) वैप १ द्र. ।  
d) = स्तेन- । < √रिह् इति दे. । e) परस्परं पाभे. । f) = स्तेन- । g) पा ३, ३, २२;  
७, ३, ९५ परामृष्ट: द्र. । h) घा. अर्चने वृत्ति: । i) माश्रौ. पाठ: । अन्यत्र छान्दसो दीर्घ: । j) न ह्, ह्, ह्  
यात् > सपा. द्राश्रौ १३, १, १५ लाश्रौ ५, १, १४ अ-रुवति इति पाभे. । k) व्यप. । घा. अर्थ: ? ।  
l) तु. पागम. । m) = रव- । भावे अतच् प्र. उसं. (पाड ३, ११०) । n) सपा. रवते <> रवथे <> ।  
रुवति इति पाभे. । o) = शब्दायमान- । p) व्यप. । q) = १रुक्ष- । r) वस. । s) या २, ३, ४, २०;  
३, १३; ६, १३; ११, ५; ३९ पा १, ३, ८९; ४, ३३; ६, ३, ११६ परामृष्ट: द्र. ।

७; हिथ्रौ ११,७,२१†; -†कमा कौत् ६४,२५; अत्र ९,५; माशि ११,३; -कमान् वाथ्रौ ३,४, ५, ३०; -कमाभ्याम् आपथ्रौ १९, २१,९; वौथ्रौ; -कमे आपथ्रौ १५,७,४; भाथ्रौ; -कमेण आपथ्रौ १५, ८, ५; वौथ्रौ ९, ७ : २२; भाथ्रौ; -कमौ काथ्रौ १९,४,१०; आपथ्रौ १५,५, १५××; वौथ्रौ.

रौकम<sup>०</sup> -कमे विघ ७१,१६.

रौकमी<sup>०</sup> -कमीम् शुभ्र २,७८.

रुक्म-कुण्डल-ले वाघ १२, ३८; वौघ २,३,२८.

रुक्मकुण्डलिन्-ली वैथ्रौ १७,१८ : १०.

रुक्म-केश<sup>०</sup> -शाः श्रप ५२,५, १.

रुक्म-प्रतिमुक्त-क्तम् आपथ्रौ २२,३,१४<sup>०</sup>; माथ्रौ ३,७, ३<sup>०</sup>.

रुक्म-प्रतिमोचन->न-विष्णु-क्रम-वात्सप्र-प्रेषु काथ्रौ १६, ४,३२.

रुक्मप्रतिमोचना(न-आ)दि-दि काथ्रौ १६, ६, ६; वाथ्रौ २, १,३,१७.

रुक्म-प्रतियुक्त-क्तम् हिथ्रौ १७,१,५२<sup>०</sup>.

रुक्म-प्रतिहित-तम् अत्राय ६, ७<sup>०</sup>; -तेन वाथ्रौ ३,४,२,१६.

रुक्म-प्रस्तरण<sup>०</sup> -णम् कौत् ७७,१†.

रुक्म-भाज्-भाक् श्रप ३६, २१,१.

रुक्म-भौम<sup>०</sup> -सम् शंघ ११६: ३.

रुक्म-म(य>)थी-थ्या वाघ १२, ३९.

रुक्म-ललाट<sup>०</sup> -टः काथ्रौ २२, २,११.

रुक्म-वक्षस्<sup>०</sup> -क्षसः वृदे ५, ६८; या ३, १५†.

रुक्म-वत्->रुक्मव(त् >) ती-तीभिः माथ्रौ ४, ३,३७.

रुक्मवच्-डिद्र<sup>०</sup> -द्रम् काथ्रौ १५, १०,१६.

रुक्म-शकल-लम् वैथ्रौ १, १० : १.

रुक्म-सूत्र-त्रम् आपथ्रौ १६, १५,८; १६,१; माथ्रौ.

रुक्म-स्तम्भ-निभ-भौ विघ १,२५.

रुक्म-स्तेय->थिन्-थी शंघ ३८७.

रुक्मा(कम-आ)वद्ध-द्धम् काथ्रौसं २८ : ९.

रुक्मा(कम-आभा>)भ-भम् वैघ ४,११ : ३.

रुक्मिन्-क्मिणम् श्राथ्रौ १६, ९, १†; -कमी आपथ्रौ २२, १३,६.

रुक्मिणी<sup>०</sup> (>रौक्मिण्य-पा.) पाग ४,१,१२३.

रुक्मन्-पाठभो २,१,२८५.

रुक्<sup>०</sup> -रुचः आपथ्रौ १६, २४, २; १७, २०, १७<sup>०</sup>; वौथ्रौ;

रुचम् आपथ्रौ ६, २२,१; वौथ्रौ ९, ६ : ६; १०, ५४ : १६××;

माथ्रौ ६,२, ६, २२; वाथ्रौ २, २, ५,७; आपमं २, २२, ४<sup>०</sup>;

भाग्य २, २६ : ८<sup>०</sup>; माग्य १, १, २३; वाग्य ५, ३७; हिय १, १५, १<sup>०</sup>;

शुभ्र २, ३३५; रुचा वौथ्रौ १८, ९ : ३७;

१७ : २; वाथ्रौ; रुचाम् आपथ्रौ ९,१२,९९;

०रुचाम् आपथ्रौ ६, २२, १; रुचे आपथ्रौ ६, २२, १××; वौथ्रौ.

रुक्-काम-सः वौथ्रौ १३, ५ : ११†;

-स्य वौथ्रौ १४,१९ : ४; -साः आपथ्रौ २१, १, १४;

हिथ्रौ १६,१,११.

रुक्-मत्-मते वौथ्रौ १३, ५ : ११†.

रुक्<sup>०</sup> -चम्, -चाय. हिथ्रौ १४, ४,३८.

रुक्क-पाठ २,३७.

रुक्वान<sup>०</sup> -नः आपमं २,११,३१†.

रुक्चि<sup>०</sup> -पाठ ४, १२०; -चिचिः

वैताथ्रौ १४, २; अत्र १७, १; -चिम् शंघ ११६ : ३०; -च्या

सु १३,३; -च्यै वाग्य १३, २†.

रुच्य(चि-अ)र्थ-र्थः वाग्य ६, ९; -र्थम् काग्य १,२०; माग्य १, १,१०.

रुचित<sup>०</sup> -पाठ ४, १८६; -चि<sup>०</sup>तः<sup>०</sup> श्राथ्रौ ५, ९, २५; काथ्रौ; -तम्

श्राथ्रौ २, २, २८; लाथ्रौ १, ६, २६;

वैताथ्रौ १४, २; -तात् जैथ्रौका ५४; -ते काथ्रौ २६,४, ५; जैथ्रौ २३ : ९; कौत् १, २, ३; शाग्य १,६,५.

a) विकारे ङन् प्र. (पा ४, ३, १५४)। b) = [ रुक्मदेवत्या- ] ङन्-। c) यत्.। d) सपा. 'विमुक्तम् <> ण्विमुक्तम् इति पाठे.। e) सपा. 'विमुक्तम् <> ण्विहितम् इति पाठे.। f) धैप १ द्र.। g) = पाताल-विशेष-। h) व्यप.। i) पाठे. धैप २ रुचिम् शौ ३, १५, ६ टि. द्र.। j) पाठे. धैप २ रुचितः मे ४, ९, ५ टि. द्र.।

रुचिर- पाठ १, ५१.  
 रुचिष्य, प्या- पाठ ४, १७९; -प्या  
 वायु १३, २१.  
 रुच्य- पा ३, १, ११४.  
 रोच<sup>३</sup>- -चः जैगृ १, १८ : १४.  
 रोचन, ना<sup>७०</sup>- पाठमो २, २, १८५;  
 पाग १, ४, ७४<sup>d</sup>; ३, १, १३४<sup>e</sup>;  
 -र्नतः पाग २, ६, १०; गोयु ३,  
 ४, १५; द्रायु ३, १, १४; गौघ  
 २०, ११; -नम् जैश्रौ २३ : ९<sup>f</sup>;  
 जैश्रौका ५५; द्राश्रौ २, २, २८;  
 लाश्रौ १, ६, २६; शंघ ११६ :  
 ६२<sup>g</sup>; -नया<sup>h</sup> अप १, ४५, ४;  
 १८<sup>i</sup>, १, ५; -र्नना आपश्रौ ४,  
 ६, ४<sup>h</sup>; वौश्रौ २, १९ : १२; ३,  
 १२ : १८; १३, २ : ४; ९; १५,  
 २४ : २<sup>h</sup>; माश्रौ ४, ९, २<sup>h</sup>;  
 माश्रौ; हिश्रौ ६, २, १५<sup>h</sup>; आपमं  
 १, ६, २<sup>h</sup>; अप<sup>h</sup> ५, २, १; विघ  
 २३, ५८<sup>h</sup>; ऋअ २, ५, ६९<sup>h</sup>;  
 शुप्रा २, ६१<sup>h</sup>; -र्ननाः आपश्रौ  
 ३, १४, २; माश्रौ ३, १३, १;  
 हिश्रौ २, ६, ३४; -र्ननानि आश्रौ  
 १, ६, १; ३, ८, १; कौसू; -नाय  
 आपमं २, २१, ६<sup>h</sup>; -र्नने शाश्रौ  
 ५, १०, २१; वौश्रौ; -नेन अप  
 १८, ३, १<sup>h</sup>.  
 रौचनिक- पा ४, २, २.  
 रोचना ✓कृ पा १, ४, ७४.  
 रोचना-चन्द्रना(न-२आ)अ-  
 -द्यैः अप १९<sup>h</sup>, ३, १.  
 रौरोचना-वत्- -वत् वौश्रौ १८,  
 १६ : १०.

रोचमान- पाग ६, २, १६०; -र्ननः  
 वैताश्रौ १४, १; आग्निगृ.  
 रोचिष्णु- पा ३, २, १३६; -र्नष्णुः  
 पाग २, ६, २८; -र्नष्णू आपमं  
 १, ३, १४; आगृ १, ७, ६; पाग  
 १, ६, ३.  
 रोचिष्णु(ष्णु-उ)रस्क<sup>h</sup>- -स्काः  
 या ३, १५.  
 रोचिष<sup>h</sup>- पाठमो २, १, ३११;  
 -र्नचिषा आश्रौ २, १, २५; काश्रौ  
 १८, २, ११; माश्रौ ५, १, २, २.  
 रोच्य- पा ७, ३, ६६.  
 ररुचि- ✓रुच् द्र.  
 ररुचि<sup>1</sup>- > रौच्य<sup>३</sup>- -च्यम् शंघ  
 ११६ : ४६.  
 ✓रुञ्<sup>३</sup> पाघा. तुदा. पर. भङ्गे; चुरा.  
 उम. हिंसायाम्, रुजति वाधूश्रौ  
 ४, ७५ : ७; ९; कौसू २५,  
 ३२; रुजन्ति या ६, ४; रौजासि  
 आपश्रौ ३, १२, १; माश्रौ ३,  
 ११, १; हिश्रौ २, ६, १४;  
 रौञ्, > जा ऋप्रा ७, ३३; ३४;  
 अरुजत् या २, २४<sup>h</sup>.  
 रौरण- -गम् आपश्रौ १२, १५,  
 ६; हिश्रौ ८, ४, २१.  
 रुण-व( त > )ती<sup>०</sup>- -त्या  
 आपश्रौ १२, १५, ५; वौश्रौ ७,  
 ७ : १०.  
 रुञ्- रुञ्जः विघ ३८, १.  
 रुञ्<sup>०</sup>- -जः अश्र १६, ३<sup>h</sup>.  
 रौञ्जत्- -जन् अश्र १६, १<sup>h</sup>;  
 -जन्तः वौश्रौ ७, ७ : १०;  
 माश्रौ ५, १, २, १७; या १०,

३०.  
 रुजा<sup>०</sup>- पाग ३, ३, १०४.  
 रुजा(जा-अ)र्थ- -र्थानाम् पा  
 २, ३, ५४.  
 रुजा-विन्- पावा ५, २, १२२.  
 रौरुजा(न >)ना<sup>१</sup>- -नाः अप ४८,  
 ७६; निघ १, १३; ४, ३; या  
 ६, ४<sup>h</sup>.  
 रोग- पाग ५, २, ३६; -गः विघ  
 १४, ४; -गम् आश्रौ २, ९,  
 १०<sup>h</sup>; कौगृ; -गस्य भागृ १,  
 २५ : २०<sup>h</sup>; अप ७०, १२, १;  
 -गाः अप ७, १, ९; वाध २१,  
 २३; -गाणाम् या ४, २१;  
 -गात् पा ५, ४, ४९; -गान्  
 शंघ ११६ : २१; -गाय अप  
 ७०<sup>h</sup>, १७, ३; -गे पा ५, २,  
 ८१; पावा ८, ४, ६१<sup>h</sup>; -गेण  
 अप ७१, ६, २; शंघ ८३; आपघ  
 २, २५, ११; हिघ २, ५, १९०;  
 -गेभ्यः कौगृ ४, १, ४; -गेषु  
 अप ६६, १, १.  
 रोग-अ- -अः ऋअ २, १, ५०;  
 वृदे ३, ११३.  
 रोग-चौरा(र-अ)गिन-संभव-  
 -वम् अप ७०<sup>h</sup>, ११, २८.  
 रोग-(द >)दा<sup>०</sup>- -दा अप २६,  
 २, ८.  
 रोग-नाशन<sup>०</sup>- पाग ३, १, १३४.  
 रोग-निषीढन- -नात् माशि  
 १६, १५.  
 रोग-परिमाण- -णानि अप १,  
 ३३, १.

a) भाप. । b) वैप १ द्र. । c) विशेषः टि. द्र. । d) लो<sup>०</sup> इति पाका. । e) विप. । ल्युः प्र. ।  
 f) = साम-विशेष- । g) विशेषेदेवानामन्यतम- । रोचकः इति शक. । h) = गो-पित्त- । i) = ननक्ष- ।  
 j) = शु-लोक- । k) वस. । l) व्यप. । m) = मनु-विशेष- (तु. शक.) । n) या ६, १ परावृष्टः द्र. ।  
 o) = ऋग्-विशेष- । p) तु. पागम. । q) पाभे. वैप १, २६५० ष्ट द्र. । r) तु. पाका. । s) उप.  
 < ✓दा [दाने] ।

रोग-प्रद- -दाः अथ ५२, १५, १.

रोग-भय- -यम् कप्र १, ७, १२.

रोग-लाभ- -भाय आज्यो ६, ३.

रोग-संयुक्त- -क्तान् हिष २, १, ६५.

रोग-संबद्ध- -द्धान् आपध २, ४, १२.

रोगा( ग-श्चा )ख्या- -ख्यायाम् पा ३, ३, १०९.

रोगा( ग-श्चा )तप- -पयोः पा ४, ३, १३.

रोगा( ग-श्च )धिप- -पम् शंघ १२६ : २१.

रोगा( ग-श्च )म्बित- -ताः विध ४५, ३२.

रोगा( ग-श्च )पनुक्ति- -त्तिः वृदे ३, ११४.

रोगा( ग-श्चा )र्विर्ता- -र्त्तः द्राध्रौ ६, २, १४; कौण्ड ४, १, १; विध ६९, १६; -र्वस्य अशां १७, ३; -र्ताम् विध ६९, १५.

रोगित- पा ५, २, ३६.

रोगिन्- -निणः विध ५४, ३३; वाशि २, १००; -निणाम् शंघ १३८.

रोगिणी- -णीम् विध ६७, ३९.

√रुट् पाषा. भ्वा. आत्म. प्रति-  
घाते<sup>७८</sup>; सुरा. उभ. भाषायाम्<sup>७</sup>.

√रुट् √रुट् टि. द्र.

√रुट् पाषा. भ्वा. पर. उपघाते<sup>७</sup>.

√रुट् पाषा. भ्वा. पर. गतौ, स्तेये<sup>७</sup>.

रुण्ड<sup>७</sup>- पाठना १, १०८; -ण्डानि अथ ७०<sup>३</sup>, १०, ३.

रुत्- √रु द्र.

√रुट् पाषा. अद्वा. पर. अशु-  
विमोचने, ऋरोदात्<sup>७</sup> आपमं १, ४, ७; आण्ड १, १३, ६; पाण्ड १, ५, ११; आमिण्ड; रोदेव् वौध १, ७, ३०; हिष १, १, ८३.  
रुदिति<sup>७</sup> अथ ६८, ३, १३; रुदन्ते ७०<sup>३</sup>, ८, ३; रुदन्ति काश्रौ १०, २, ३४<sup>१</sup>; वाधुश्रौ; वौण्ड १, ६, २६<sup>१</sup>।

ऋरुदिति आपमं २, १३, ५; पाण्ड १, १६, २५; आमिण्ड.

अरुदत् वा १०, ५<sup>१</sup>; अरोदीत् वृदे २, ३४; वा १०, ५<sup>१</sup>;

ऋरुदम् आपमं २, १३, ३; ४; आमिण्ड २, १, ३ : २९; ३१; भाण्ड १, २५ : ७; वाण्ड.

रुदत्- -दतः अथ ६८, २, १६; -दत्सु अथ ७०<sup>३</sup>, ८, ५; -दम्ब्यः वाण्ड १, ६, ८; -दन् वाध १५, १८; आपध १, ३२, २४; हिष १, ८, ६५; -दन्तः वाधुश्रौ ३, ९४ : २; ७; १०; अथ ७०<sup>३</sup>, ७, २.

रुदती- -तीम् आण्ड १, ६, ८; -तीत्यः आपमं १, ४, ९; आमिण्ड

१, ५, २ : ५४; काण्ड; -त्याम् आण्ड १, ८, ४; कौण्ड १, ९, २.

रुदन्ती- -न्ती वौश्रौ १८, १३ : १०; अथ ७०<sup>३</sup>, ३, ५; -न्तीम् आण्ड ३, ११.

रुदित- -तम् हिण्ड १, १६, १७<sup>१</sup>; वाशि २, ५९.

रुदित्वा वाध ३, ३८.

रोद- -दः वौश्रौ २, ५ : १७.

रोदन- -नाः अथ ६८, १, ४३; -ने ७२, १, ४.

रोदन-गीत-साम-शब्द- -द्वाः आपध १, १०, १९; हिष १, ३, ४६.

रोदनो( न-उ )ओशन- -नानि अथ ६४, ६, ४.

रोदितव्य- -व्यम् कप्र ३, ३, ९; विध २०, ३०.

रुद्ध- √रुट् द्र.

रुद्ध, रुद्धा<sup>१</sup>- पाठ २, २२; पाण्ड ४, ३, ११८; -ऋंद् आध्रौ १, १२, ३४<sup>१</sup>; ३, ८, १; काश्रौ; आपध्रौ ९, २, ९<sup>१</sup>; भाश्रौ ९, ४, १<sup>१</sup>; नाश्रौ १, ७, ७, ४; ३, १, २५<sup>१</sup>; वाश्रौ १, ७, ४, ६२<sup>१</sup>; हिश्रौ १५, १, ४८<sup>१</sup>; -द्ः आश्रौ ४, ११, ५; शाश्रौ ६, ३, ४<sup>१</sup>xx; काश्रौ; अथ ऋंद् ९, ७<sup>१</sup>; १०१<sup>१</sup>; साश्र १, १५<sup>१</sup>; ५९५<sup>१</sup>; विध ३, १६<sup>१</sup>; वा १०, ५<sup>१</sup>; वेज्यो ३२<sup>१</sup>; -द्म् शाश्रौ ४, १७,

a) पा १, ३, ९१; ३, १, ५५ परानृष्टः द्र. । b) दीप्ती इति केचिन् इति BPG. । c) √रुट् इति [पक्षे] BFG. । d) √रुट्, √रुण्ड इति [पक्षे] BPG. । e) = कथन्प- । f) वा १०, ५ वा १, २, ८; ७, २, ७६; ३, ९८; ९९ परानृष्टः द्र. । g) पामे. वष १ रोदात् ति २, ११, १ टि. द्र. । h) = रोदिति । रुन्दोदना रुण्डम् । i) न्ती इति पाठः ? इति. शोधः (ह्र. श्रौ १४, १, ४६) । j) सपा. चाण्ड १, १५, २ प्ररुदन्त्याम् इति पामे. । k) पामे. वृ ४२२ j द्र. । l) वष १ द्र. । m) सपा. श्रौ ११, २, १५ अण्डु इति पामे. । n) = स्तोत्र- । o) = पर्वत- । p) = आमि- । q) = कति-विशेष- । r) = चार्शनक्षत्र-देवता- ।

१; ६, ३, ४<sup>१</sup>; काश्रौ ५, १०, १२<sup>१</sup>; आपश्रौ; -<sup>१</sup>द्रस्य आपश्रौ १, २, ८; वीश्रौ १, १ : १३; भाश्रौ; -<sup>१</sup>द्रा शाश्रौ ६, ६, ६; आपश्रौ १०, २२, ११; वीश्रौ ६, १३ : १; भाश्रौ १०, १५, ६; वैश्रौ १२, १६ : १६; -<sup>१</sup>द्राः <sup>१</sup>शाश्रौ ४, २१, ११; १२, १९, २; १४, ३३, ११<sup>६</sup>; १७, १६, २; काश्रौ; वीश्र ४, ६, १<sup>३</sup>; पिं ३, ६<sup>३</sup>; -<sup>०</sup>द्राः काश्रौ २५, १३, २६<sup>१</sup>; आपश्रौ १४, २०, ७<sup>१</sup>; माश्रौ; या ११, १५; -<sup>१</sup>द्राणाम् शाश्रौ १, ६, २; ४, २१, २४; ९, २८, १५; आपश्रौ; आपमं २, १०, ९; आश्र १, २४, ३२; पाश्र १, ३, २७; माश्र १, ९, २३; हिश्र १, १३, १२; गोश्र ४, १०, २०; अप ४१, ५, ७; वृदे १, १२७; ५, ४७; शुभ २, २६१; -<sup>१</sup>द्रान् आपश्रौ ४, १, ८××; वीश्रौ; वैताश्रौ २२, ४<sup>६</sup>; शांश्र ३, ११, ६<sup>१</sup>; पाश्र ३, ९, ६<sup>१</sup>; आपश्र २०, ८<sup>१</sup>; काश्र ५९, ४<sup>१</sup>; माश्र १, ४, १३<sup>१</sup>; -<sup>१</sup>द्राय आश्रौ ३, ११, १<sup>१</sup>; शाश्रौ ३, ४, ८; ५, ६××; काश्रौ; -<sup>१</sup>द्रासः माश्रौ २, ५, ४, २४; ऋश्र ३, २५; -<sup>१</sup>द्रासः शाश्रौ १०, ६, २०; ११, ६, ८; ऋश्र २,

५, ५७; वृदे ५, ४७; या ११, १५; -<sup>१</sup>द्रेण वृदे २, ४; या ७, १०; -<sup>१</sup>द्रेभिः शाश्रौ ६, ११, ११; कौसू १०, १६; १३९, १५; अश्र ४, ३०; अश्र २ : ३६; -<sup>१</sup>द्रेभ्यः आश्रौ ६, ११, १६; आपश्रौ; वैताश्रौ २२, ४<sup>६</sup>; -<sup>१</sup>द्रेषु शाश्रौ १४, ३३, ११; आपश्रौ ६, ९, १<sup>१</sup>; -<sup>१</sup>द्रेः आश्रौ २, ११, १२<sup>१</sup>; शाश्रौ ३, ६, २<sup>१</sup>; आपश्रौ.

रुद्राणी- पा ४, १, ४९; -<sup>१</sup>ण्यः वीश्रौ १९, १० : २५; -<sup>१</sup>ण्याम् भाश्र ३, १३ : ४<sup>६</sup>; -<sup>१</sup>ण्यै शाश्रौ ४, १९, ५; पाश्र ३, ८, १०; वीश्र २, ८, १६; भाश्र ३, १३ : ४.

रौद्र<sup>१</sup>-<sup>१</sup>द्रः काश्रौ १५, १, २६; ३, १२; १६; वीश्रौ; अप-<sup>१</sup>द्रे, १, १७<sup>१</sup>; आपश्र २, ४, ६<sup>१</sup>; हिश्र २, १, ५९<sup>१</sup>; आश्रौ १, ६<sup>६</sup>; -<sup>१</sup>द्रम् आश्रौ ८, १, २०; काश्रौ १, १०, १४××; आपश्रौ; अश्र २०, ६, ४<sup>१</sup>; ऋश्र २, १, ४३; ११४××; अश्र ४, ३; २८××; -<sup>१</sup>द्रस्य शाश्रौ ६, ११, १०; वीश्रौ १०, ५६ : ११; माश्र २, २, १९; अश्रां ६, २<sup>१</sup>; -<sup>१</sup>द्राः शांश्र ४, १९, ४<sup>१</sup>; अश्र ७१, ३, ३; शुप्रा ८, ४०; याशि २, १; -<sup>१</sup>द्राणि आज्यो २, १; -<sup>१</sup>द्रान् काश्रौ ५, १०, १; १६; वैश्रौ;

-<sup>१</sup>द्राभ्याम् अश्र ३३, ६, १२<sup>१</sup>; -<sup>१</sup>द्रे अप ७०<sup>२</sup>, १७, १; विध ७८, ११<sup>१</sup>; शुभ; आश्रौ २, १<sup>६</sup>; -<sup>१</sup>द्रेण <sup>१</sup>शाश्रौ ६, १२, ३; १३, १; काश्रौ; -<sup>१</sup>द्रेषु अप २५, १, ८; -<sup>१</sup>द्रेः जैश्रौ १३ : २५; अश्राम २, ४; -<sup>१</sup>द्रौ अश्र ३३, ६, ३<sup>१</sup>.

रौद्री-<sup>१</sup>द्री<sup>०</sup> अश्र ३१, ८, २; ६३, ५, ५; ७०<sup>२</sup>, १०, १; अश्रां १६, १; ऋश्र; -<sup>१</sup>द्रीभिः हिश्रौ १२, ६, २६; काश्र ५८, ४; -<sup>१</sup>द्रीम् अश्र ५४, २, ४××; अश्रां; -<sup>१</sup>द्रयः वृदे ३, १०८; -<sup>१</sup>द्रया आपश्रौ १५, १८, ५; अश्र २, २७; -<sup>१</sup>द्रयाः शाश्रौ १४, ५७, ३; -<sup>१</sup>द्रयाम् अश्रां १८, ५; १९, ५; -<sup>१</sup>द्रयौ वीश्र ४, २, ८; शुभ १, २२२; अश्र ६, ५५-५७.

रौद्र-शु(लक >)लिका<sup>१</sup>-<sup>१</sup>काः कौश्र ४, ४, १९<sup>१</sup>.

रौद्र-जटिल-<sup>१</sup>लः अश्र ६८, ५, ९.

रौद्र-मन्त्र-<sup>१</sup>न्त्रैः अश्र १९<sup>२</sup>, ३, ४.

रौद्र-राक्षस-नैर्ऋत-पैतृक-छेदन-भेदन-खनन-निरसना (न-अ)वप्राणा(ख-आ):माभिम-शन-<sup>१</sup>नानि वैश्रौ ४, ७:११; भाश्र ३, १८ : ८.

रौद्र-राक्षस-नैर्ऋत-पैतृक-छेदन-भेदन-निरसना(न-आ)

a) = एकादश-रुद्रानुवाकाः ।

b) = एकादशाक्षर- ।

c) पाभे. वैप १ रुद्रान् तै ४, ४, १,

२ टि. द्र. ।

d) = रुद्र-मन्त्र- ।

e) पाभे. वैप १ रुद्रेभ्यः तै ४, ४, १, २ टि. द्र. ।

f) पाभे.

वैप १ रुद्रेभिः तै २, १, ११, २ टि. द्र. ।

g) = [प्रकरणतः] गृहावयव- ।

h) विप. (चरु, मन्त्र,

सूक्त-प्रमृ.) । साऽस्य देवतादयर्थे अण् प्र. ।

i) = मन्त्रगण-विशेष- ।

j) = [रौद्र-] वलि- ।

k) = मुहूर्त-विशेष- ।

l) = [रुद्रापत्य-] स्कन्द- ।

m) = [रुद्रदेवत्य-] आर्दानक्षत्र- ।

n) सपा. रौद्राः

गोलकाः <> रौद्रगुलिकाः इति पाभे. ।

o) = शान्ति-विशेष-, ऋग्-विशेष- ।

p) उप.

= यवादिमय-पिष्ट- ।

त्माभिमर्शन- -नानि आपथौ  
२४, २, ९.

रौद्र-राक्षस-पैतृक-नैर्ऋत-  
छेदन-भेदन-निरसना(न-आ)  
त्माभिमर्शन- -नानि आमिगृ  
२, ७, ९ : ५.

रौद्र-राक्षस-पैशाच- -चान्  
अप २३, १३, १.

रौद्र-सूक्त- -क्तैः कौगृ ४, १,  
८.

रौद्र-सौयौ(र्य-श्री)पस- -सेपु  
वृदे ४, ९९.

रौद्रे-होम-क्षपन- -नम् अप  
४०, १, ९.

रौद्रा(द्र-आ)मेय- -यम्  
अप १८, १, १३.

रौद्रा(द्र-आ)दि- -दिः शांथौ  
६, १२, ४.

रौद्रा(द्र-अ)व्याय<sup>०</sup>- -यः  
शुभ्र २, २४५.

रौद्रक- पा ४, ३, ११८.

रौद्रौ(व>)या<sup>०</sup>- -या अन्न १,  
१९.

रुद्र-कार्य- -र्याणि आज्यो २, १.

रुद्र-गण- -णः अप ३२, १, १६;  
१७; अशां १८, ५; -णान् अन्न  
५, ६; -णेन अप १९<sup>१</sup>, ३, ५.

रुद्रगण-रौद्रगण- -णयोः अश्रभृ  
१.

रुद्र-ज- -जम् अप ७०<sup>१</sup>, १०, ४.

रुद्र-त्व- -त्वम् या १०, ५<sup>१</sup>.

रुद्र-देवता->त्व- -त्याः कागृ  
७०, ५.

रुद्र-देवत्य- -त्यः चाअ १७ : १७;

-त्वम् चव्यू ४ : २३; -त्वौ  
वैगृ ३, १७ : ५.

रुद्र-पत्नी- -त्न्याः वृदे ५, ४६.

रुद्र-पार्षद- -दान् आमिगृ २, ६,  
३ : २५<sup>१</sup>; शंघ ११६ : २६;  
बौध २, ५, २०.

रुद्र-पार्षदी- -द्रीः आमिगृ २, ६,  
३ : २५; बौध २, ५, २०.

रुद्र-मन्य- -न्यम् वैगृ ३, १७ : ५;  
४, ९ : ५.

रुद्र-मातृ<sup>०</sup>- -तरम् वागृ ११, २१<sup>१</sup>.

रुद्र-रौद्र- -द्राम्याम् अप १८<sup>१</sup>,  
१, २; -द्रौ अप ३३, १, ९.

रुद्ररौद्र-गण- -णौ रूअशां २३,  
५; २४, २.

रुद्ररौद्र-पर<sup>०</sup>- -रैः अप ३३, ६,  
११.

रुद्र-लोक- -कम् अप ४०, ५, ५;  
-के अप ३१, १०, ४.

रुद्र-वत्- -वतः काथौ १०, ७, १३<sup>१</sup>;  
-वते आथौ ५, १, १५<sup>१</sup>; शांथौ;

-रूवन्तम् आथौ ५, ३, १०;  
शांथौ ६, ९, १३; माथौ ५, १,  
१०, ६; हिथौ २२, ३, २०;

-रूवान् आथौ २, ११, ११;  
काथौ १०, ७, १३.

रुद्रवती- -तीः निस् ६,  
१३ : ३; -रूतीम् आपथौ ११,  
५, १; बौथौ १, ११ : २६; ६.

२३ : ३; माथौ २, २, ६; हिथौ  
१, ६, ११.

रुद्रवद्-गण<sup>०</sup>- -णस्य आपथौ  
१२, २४, ७; बौथौ ८, ४ : २४;

२६, ८ : ७; माथौ २, ४, ४, २९;  
वैथौ १६, ६ : १; हिथौ ८, २,  
२०; -णेन बौथौ २६, १५ : १०;  
१९; २६.

रुद्र-शमन- -नम् चाअ १७ : १६.

रुद्र-संमि(त>)ता- -०त्ते अशां  
१, ५.

रुद्र-सावर्णा<sup>१</sup>- -र्णन् शंघ ११६ :  
४६.

रुद्र-सावित्री- -त्रीम् अप ४०, २,  
६; ६, ४.

रुद्र-सूक्त- -क्तम् वैगृ ६, २० : ४.

रुद्र-सुतु- -नून् वृदे ५, ६९.

रुद्र-सेना- -नाभ्यः शांथौ ४, १९, ७.

रुद्र-होतृ<sup>०</sup>- -तारम् बौथौ ९, १९ :  
२०; बौगृ ३, ४, १३; -त्रे  
आपथौ १५, ११, ७; बौथौ.

रुद्रा(द्र-अ)भिमान- -ने काथौ २३,  
४, १९.

रुद्रा(द्र-अ)वत्(व>)धा- -धा  
माथौ २, ३, २, १३<sup>१</sup>.

रुद्रा(द्र-आ)हुत्व(ति-अ)न्त- -न्ते  
बौगृ ३, १३, ४.

रुद्रद्विय,या<sup>१</sup>- -या आपथौ ११,  
२, ४; बौथौ ६, १९ : २५; माथौ  
१२, २, ७; माथौ २, २, १, ४६;

वैथौ १२, २४ : ३; हिथौ १०,  
३, ३६; -याभिः आथौ २, ११,  
१२; शांथौ ३, ६, २; -याम्यः  
काथौ २५, ११, २६; आपथौ  
१०, १३, ११; बौथौ २८, ९ :  
२४; -याय नागृ १, १०, १०<sup>१</sup>.

रुद्रं(द्र-ए)कादति(क>)का<sup>१</sup>-  
-काम् बौध ४, ६, ४.

a) कस. । वृ १२५ सत्य. लघ्यायः इति नेष्टम् । b) नास्यदेवतीयत् छम् प्र. उस्तं. (पाता ४, २, २८) ।

c) उप. = २मातृ. । d) वस. । e) वैप १ द. । f) = नरु-विरोप. (तु. कक) । g) वैप १

निर्दिष्टानां नमावेदः द. । h) पाभे. वैप १ रोदात् ति २, ११, १ टि. द. । i) = [ रुद्रसंमिन्निन्- ] एकादशा-

जुवाक- । पम. ।

√रुध् पाधा.दिवा.आत्म. कामे; रुधा.  
उभ. आवरणे, रुग्न्दि आपश्रौ ९,  
८,२; रुन्ध्यात् आपश्रौ ८,६,२२;  
वौश्रौ ५,७ : ७; भाश्रौ ८,८, ५;  
वैश्रौ ८, १२ : ३; हिश्रौ ५, २,  
४६.  
ःमरुत्समहि हिश्रौ ७,२,८३.  
रुध्यते अप ६३,३,१०; रुध्यन्ते  
अप ६३,४,२.  
रुद्ध>द्वा-द्वा गोगृ २,३,११.  
रुधत्-धत्तः या ५,२,२१.  
ःरोध->°ध-च(क्र>)का<sup>१</sup>-  
-क्राः अप ४८,७६; निघ १,१३;  
-के अप्रा ३,२,१.  
रोधस्<sup>१</sup>-धः या ६,१६; -धांसि  
अप ७१,१२,१.  
रोधस्-व(त्>)ती<sup>१</sup>-त्यः निघ  
१,१३.†  
√रुध् (=√रुह्)>२रोध->रोधा-  
(ध-अ)वरोध-धात् कौसू ९८,  
२.  
रुधिर<sup>१</sup>०-पाठ १,५१; -रम् वाधुश्रौ  
४,६८ : ७; अप १,२७,२; २७,  
१,२; ६७,७,२; ७०<sup>३</sup>, ११,१३;  
७१,८,३; सुध ५०; -रस्य वौश्रौ  
२,१० : ३२†; -रे अप ६४,८,  
६<sup>२</sup>; -रेण वौश्रौ ९,१८ : ११†.  
रुधिर-प्रकोप-पाः अप ७०<sup>३</sup>, ११,  
२४.  
रुधिर-प्राशन-ने सुध १८.  
रुधिरा(र-आ)गम-मः अप ६८,  
२,१८.  
रुधिरा(र-अ)ङ्ग<sup>१</sup>-ङ्गान् अप ६८,

१,१५.  
रुधिरा(र-अ)म्बु<sup>१</sup>-म्बु अप ७१,  
१९,५.  
रुधिरो(र-उ)पगत-कण्ठ-ण्ठे  
विध २२,६७.  
रुधिरो(र-उ)पल-पांसु-वर्ष-र्षे  
वैध २,१२,३.  
√रुप्(वधा.)पाधा.दिवा.पर. विमोहने,  
ःरु रूपाम आपश्रौ ३, १, २;  
वौश्रौ १,१७ : २८; भाश्रौ.  
ःरुप<sup>१</sup>-रुपः या ६, १७; ऋप्रा २  
७५; उसू २,११.  
रुमण->रुमण-वत्-पा ८,२,१२.  
?रुमथा अप ४८,११६†.  
रुमा-पाठभो २,२,२४३.  
रुम्र-पाठ २,१४.  
?रुराल-ले आम्रिण २, ४, १ : २३.  
?रुरु(वप्रा.)<sup>१</sup>०-पाठ ४,१०३; पाग २,  
१,५६; ४,३,१६२<sup>६</sup>; ५,३,१०८<sup>१</sup>;  
-रवः अप ७१, ३,३; -रुः कप्र  
३,८,११; अप ६८, ५,८; -रम्  
अप ७०<sup>३</sup>, ५,२.  
?रौरुव<sup>१</sup>-पा ४,३,१६२; -वम् पाग  
२,५,१८; आम्रिण १,१,२ : ४३;  
काय ४१, १३; वौश्रु; भागृ १,  
१ : ७; -वेण आगृ १,१९, १०;  
कौश्रु २,१,३; शांश्रु २,१,४; विध  
८०,७.  
रौरुव-पार्षत्-तानि कौसू ५७,  
११.  
रौरुक्-पा ५,३,१०८.  
२रुरु->रौरुक्-पा.) पाग ४, ३,  
११८.

३रुरु<sup>१</sup>->रौरुक्<sup>१</sup>-विणाम् जैश्रौ ५  
२१.  
४रुरु->रुरु-पा.) पाग ५, २,  
१००<sup>१</sup>.  
रुरुक<sup>१</sup>->रौरुक्<sup>१</sup>-कीणि<sup>१</sup> द्राश्रौ  
४,३,११<sup>१</sup>; लाश्रौ २,३,१.  
रौरुक्-ब्राह्मण-णम् गोगृ ३,२,६.  
रुवत्-रुवथ-√रु(वधा.) द्र.  
√रुश्(वधा.)पाधा.तुदा.पर.हिंसायाम्.  
ःरुशत्<sup>१</sup>-शत् निघ ४,३; या ६,  
१३६; १४; ऋप्रा १४,४९.  
ःरुशती-ती आपमं १,  
१७, ८; कौसू १०२, २; या २,  
२०; अप्रा ३,४,१.  
ःरुशत्-पशु<sup>१</sup>-शुः काश्रौ ९,३,  
१; आपश्रौ १२,५,१; वौश्रौ.  
रुशद्-व(त्स>)त्सा<sup>१</sup>-त्सा या  
२,२०†.  
ःरुशम<sup>१</sup>-मेपु आश्रौ ८,३,१०; शाश्रौ  
१२,१४,१.  
रौशम<sup>१</sup>-मः वृदे ५,३४.  
√रुष्<sup>१</sup>, पाधा.भा.दिवा.पर.हिंसायाम्;  
चुरा.<sup>१</sup> पर. रोषे, ःरोपाति आश्रौ  
६,५,१८; शाश्रौ ९,२०,२६.  
रुषति नाशि १,१,६.  
रुष(त्>)ती<sup>१</sup>-त्यः मागृ २,७,  
१†.  
रुषित-, रुष्ट-पा ७,२,२८.  
रोष-पः आपध १, २३, ५; हिघ  
१,६,१३; -पाय वागृ ४,२४.  
रुष<sup>१</sup>->रुष-र-  
रुषङ्कि-ङ्किः अप ४८,११६†.  
रुष्टि<sup>१</sup>->रुष्टि-मत्-

a) वैप १ द्र. । b) =नदी- । c) =असृज्- । d) वस. । e) उपमितसमासः । f) विशेषः  
टि. द्र. । g) =वृक्ष-भेद- । h) तु. पागम. । i) विप. (चर्मन्-). विकाराद्ये अण् प्र. । j) =ऋषि-विशेष- ।  
k) =तत्प्रोक्तशाखाध्यायिन्- । l) =यजुस्- । m) ँरि इति पाठः? यनि. शोधः (तु. लाश्रौ.) । n) धा.  
दीप्तौ वृत्तिः । o) अपत्याये प्र. । p) पा ७, २, ४८ परामृष्टः द्र. । q) √रुद् इति [पक्षे] भागडा. प्रष्ट. ।  
r) अर्थः? =रुशती- इति Dn. । s) पृ ७५९ f द्र. । t) पृ १९६९ n द्र. ।

रुह्य- (> रुह्य-वत्- पा.) पागु ४,  
२, ८६.

✓रुह् ( वधा. )<sup>१</sup> पाधा. भ्वा. पर.  
बीजजन्मनि प्रादुर्भावे च,  
रोहति शांश्रौ ११, १४, १३१;  
१६, १७, १०<sup>३</sup>; आपश्रौ; रोहन्ति  
शांश्रौ ५, १०, ३२१<sup>३</sup>; ऋप १०,  
१, २, १; ऋरोहत्तु वौश्रौ ३, २६ :  
४; हिश्रौ ६, ३, १४; कौश्रु ५,  
५, ५; रोहन्तु आश्रौ ४, ७,  
४१<sup>३</sup>; वौश्रौ १०, २४ : १८;  
वैश्रौ १८, १५:५; ऋरोह वौश्रौ  
११, ११ : १४; वैश्रौ १७,  
१४ : ११; हिश्रौ; रोहाणि  
वौश्रौ १७, ३९ : ९; रोहाव  
काश्रौ १४, ५, ६१<sup>३</sup>; वौश्रौ ११,  
११ : १२<sup>३</sup>; वाश्रौ; रोहेत्  
आश्रौ ८, २, १३; ४, १३; ६,  
१५; ९, ९, १३; रोहेयम् शांश्रौ  
१६, १७, ११.

रुहात् निस्र २, ९ : ३१.

रुहन्ति अप ७०<sup>३</sup>, ७, २४;  
ऋरोहयम् आपश्रौ १८, ४, १२;  
वौश्रौ ११, ७ : ३०; हिश्रौ १३,  
१, ४६; वैताश्रौ २७, ६<sup>७५</sup>.

रुहुः या ६, ३१; ऋरोहिथ  
अश्र ६, १३९; अश्र २ : ६४;  
३ : ३७, ऋरोक्ष्यामि आपश्रौ  
१८, ५, १२; वौश्रौ ११, ११ :  
१३; वाश्रौ; ऋरुक्षत् कौस्र  
१२५, २; अप्राय २, ६; ऋरुहम्  
शांश्रौ १६, १७, ८; वैश्रौ १२,  
१६ : १२; १७ : १०.

रोपयन्ति भाश्रु ३, ११ : १२;

हिश्रु २, २०, १०; रोपयेत्  
आमिश्र १, २, २ : ४५; माशि  
२, ७; नाशि १, ६, ५.

रोहयस्व माश्रौ २, ५, ४, २४;  
ऋरोहेयम् भाश्रौ ५, १, ९;  
हिश्रौ ३, २, ८.

ऋरुह्- रुहः आश्रौ ४, ७, ४<sup>१</sup>;  
शांश्रौ ५, १०, ३२<sup>१</sup>; अश्र १३, १.

ऋरुहत्- हत् वैताश्रौ १७, ६;  
कौस्र ११, १२.

ऋरुहाण- णाः वौश्रौ १४, २१ :  
१३; ऋत् ३, ७, २.

रुह- रुहः वौश्रौ ४, १ : १६; वैश्रौ  
१०, १ : १३; हिश्रौ ४, १, १४;  
-रुह्य अश्र ६८, २, ५०; -ढाय  
वाश्रौ ३, २, ७, ३१.

रुह-पर्यायि<sup>३</sup>- -याः लाश्रौ ६,  
७, ७.

रुह-प्रत्यवरुह- -ढम् निस्र १०,  
१२ : १८.

रुह-रुमश्रु<sup>३</sup>- -धुः गौध ९, ७.

रुह-रुमश्रु-नश्रु<sup>३</sup>- -खानाम्  
अश्र ६८, २, ४६.

रुहा( ढ आ )वृत्त- -त्तम् निस्र  
९, १० : २९; १२ : २७; -त्तान्  
निस्र १०, ८ : २; -त्तौ निस्र  
९, १२ : १३.

ऋरुहि->रुहि-गत- -तम् वृदे २,  
१०२.

रुहि-शब्दा( वृ-अ )यं-सं-  
(ज्ञा >)ज्ञ<sup>३</sup>- -ज्ञाः अश्र ३, ३,  
२१.

रोक्षयत्- -क्षयन्तः आश्रौ ११, ३, ७  
रोपग- -णानि आश्रौ ५, ९.

रोपयिष्णु- -ष्णू वैताश्रौ १०, १७<sup>१</sup>.

ऋरोह<sup>६</sup>- पा ३, १, १४०; -हः  
शांश्रौ १५, २, २७; २८; ४, ३;  
निस्र २, ८ : २३××; या ७,  
२३; -हम् निस्र ४, ६ : १७;  
-हाः निस्र २, ९; ३२; -हाणाम्  
निस्र २, ९ : ३१; -हात् वृदे  
१, १०२; या ७, २३; २४;  
-ऋहान् आपश्रौ ५, ३, ५; वौश्रौ  
२, १२ : १८; १७, ३९ : ९;  
भाश्रौ ५, १, ९; हिश्रौ ३, २, ८;  
आमिश्र १, ३, १ : १०; -हेण  
निस्र ९, ३ : १३; १० : ११;  
या ७, २३.

रोह-दर्शन- -नम् निस्र ६, ३ :  
१३.

रोह-प्रत्यवरुह- -हौ निस्र ९,  
१२ : ६; १०, ५ : २०; ८ : ३;  
१२ : ७; १३; १४.

रोहो(ह-उ)पकार- -रः निस्र ८,  
८ : ३८.

रोह(ण >)णी<sup>०</sup>- -णी कौस्र २८,  
५<sup>१</sup>.

रोहत्- पाग ३, १, १२; -हन्तम्  
शांश्रौ १६, १७, ११.

✓रोहाय पा ३, १, १२.

रोहन्त- पाउ ३, १२७.

ऋरोहस्<sup>०</sup>- -हः शांश्रौ ८, २५, ३;  
-होभ्याम् शांश्रौ ८, २५, ३.

ऋरोहि- पाउ ४, ११९.

ऋरोहि(ञ >)णी<sup>०</sup>- -णी अश्र ४,  
१२<sup>१</sup>.

रोहिष्यं वौश्रौ ४, ९ : १९<sup>१</sup>; पा  
३, ४, १०.

a) पा ३, १, ५९; ७, ३, ४३ परामृष्टः द्र. । b) पाभे. वैप १ रोहन्ति नै ४, १२, २ टि. द्र. । c) पाभे.  
वैप २, ३३. रोहेयम् गोत्रा २, ५, ८ टि. द्र. । d) रोहेयम् इति C. शोधः । e) वैप १ द्र. । f) पाभे. वैप १,  
२०७८० द्र. । g) = व्याहृति-विशेष- । h) घन. । i) क्त. > क्त. । j) क्त. > प्त. > य्त. । k) कर्त्तरि  
भाषे च क्त. । l) पाभे. वैप १ रोहणी शौ ४, १२ १ टि. द्र. ।



सहन्- पाठ ४, ११४.

✓रू (= √लू), ऋराविष्ट आश्रौ ३, ३, १; शांश्रौ ५, १७, ९; माश्रौ ५, २, ८, २३.

ऋरवित्- ता आश्रौ ३, ३, १; शांश्रौ ५, १७, ९<sup>६</sup>.

✓रूक्ष पाधा.चुरा.उभ.पारुष्ये.

१रूक्ष,क्षा<sup>b</sup> -क्षः द्राश्रौ ३, ४, २; निस् ८, ४ : २८; ३४; ३६; अप ५१, ३, १; ५३, ५, १; -क्षाः अप ५२, ३, ३; ४, १; ५८, १, ७; ६४, २, ४; वौघ २, ३, ४०; -क्षाम् वाध २७, ११; -क्षे अप २२, ३, ४.

२रौक्ष्य-क्ष्यम् आशि ८, २०.

रूक्ष-पेपम् पा ३, ४, ३५.

रूच-स्फुटित-दुर्दर्श- -र्शाः अप ६८, १, ३९.

रूक्ष-त्ता(व >)वा<sup>c</sup> -त्ता अप ६४, ८, ५.

१रूक्षोभावुकः<sup>d</sup> द्राश्रौ ३, ४, २.

२रूक्ष<sup>e</sup> - (>रौक्षायणि- पा.) पाग ४, १, १५४.

रूढ- १रूढि- प्रमृ. ✓रूढ द्र.

२रूढि<sup>f</sup> - > रौढीय<sup>g</sup> -> ष्य-पाणि-नीय<sup>h</sup> - पाग २, २, ३१.

रूढ (>रौढेय-पा.) पाग ४, १, १२३

✓रूप पाधा.चुरा.उभ. रूपक्रियायाम्.

रूप<sup>h</sup> - पाठ ३, २८; पाग ५, २, ९५; -पम् शांश्रौ ८, १६, ३××; आपश्रौ १, ६, ११××; १५, १५, १<sup>२५</sup>; वौश्रौ; माश्रौ ११,

१५, २-२८<sup>१</sup>; या ३, १३<sup>६</sup>; -ऋपम्-पम् कौश्र १, ८, ७; शांश्र १, १२, ७; कौस् १३५, ९; अत्र १९, १<sup>१</sup>; या १०, १७<sup>३</sup>फं; -पस्य अप ४८, ७९; विध २०, २६; निघ ३, ७; -ऋपाणाम् शांश्रौ ४, १०, १; काश्रौ ५, १३, १; वौश्रौ; -ऋपाणि आश्रौ २, ६, २; ११, ४; ४, ९, ५; शांश्रौ ३, ७, ४<sup>३</sup>××; काश्रौ; वौश्रौ १०, १५ : ४ ?; वाश्रौ १, ४, ४, ४१; -ऋपाणि वौश्रौ १९, १० : २५; ४३; -पात् माश्रौ १, २, ५, ७<sup>१</sup>; निस् ४, १२ : १५; ५, २ : २३; वृदे १, २५; मीस् १, २, ११; -पे वाधूश्रौ ३, २६ : २-४; ४१ : १; ६९ : ३२; निस् १०, ४ : ७; तैत्रा ४, ११<sup>१</sup>; -पेण आश्रौ २, ११, ३<sup>१</sup>; शांश्रौ १४, २४, ३××; काश्रौ; वौश्रौ १४, १२ : १२<sup>१</sup>फं; या १४, ४; -पेभ्यः शांश्रौ १५, १४, ४; आपश्रौ १२, १९, २<sup>१</sup>; वौश्रौ १४, ८ : ३०<sup>१</sup>; अप ४०, ३, ३; -पेषु वौश्रौ २३, २ : २९; -पैः आपश्रौ ७, ५, २<sup>१</sup>; माश्रौ ७, ४, ३<sup>१</sup>; हिश्रौ ४, १, ६५<sup>१</sup>; अप ५७, १, ८; २, ८; ३, ६; या ८, १४<sup>१</sup>.

रूप-काम- -मस्य आप्रिगृ २, ४, ११ : २.

रूप-कृत्- -कृत् काश्रौ ५, १३, १<sup>१</sup>; वृदे १, ८४.

रूप-ग्रहण- -णम् पावा ६, ३, ४९.

रूप-तस् (: ) वौश्रौ २८, ७ : १.

रूप-धेय- पावा ५, ४, ३६.

रूप-नामन्- -म या २, ९; ३, ११; ५, ८; १३; ८, ११; -नामानि निघ ३, ७; या ३, १३.

रूप-नियम- -मः वैश्रौ १५, १ : १; हिश्रौ ८, ५, १४.

रूप-पति- -तिः काश्रौ ५, १३, १<sup>१</sup>.

रूप-भाज्- -भाक् विध ९०, २४.

ऋरूप-भृत्- -भृत् अप १, ३९, २; अशां ९, २.

रूप-यौवन-संप(ज >)त्ता- -त्ताम् विध १, २९.

रूप-रश्मि- -श्मयः अप ५२, ४, ३.

रूप-रस-गन्ध-व(त् >)ती- -त्यः शंघ २३४.

रूप-लिङ्ग- -ङ्गाभ्याम् मीस् ६, ८, ४०.

रूप-वत्- पा ५, २, ९५; -वतः विध ७८, १९; -वान् वाध १६, २८; २९, २.

रूपवती- -न्ति मागृ २, १४, ३०<sup>१</sup>; -ती वृदे २, १०७; या ५, १३; -तीम् विध ९०, ७.

रूपवद्-भा(या >)र्य<sup>h</sup> -र्यः वृदे २, १०७.

रूपवत्-ता- -ताम् वृदे ७, ४५.

रूप-वर्ण-प्रभा-सह-प्रमाणा(ण-आ) कृति-सङ्गम- -मैः अप ५८<sup>२</sup>, १, ७.

रूप-विकर्त्- -र्ता वृदे ३, २५.

रूप-विपर्यय- -यम् विध ९६, २७.

a) = मृत्यु- इति ८.। b) वैप १ द्र । c) वस. । d) पाठः? रूक्षभावुकः इति शोधः ।

e) तु. पागम. । f) व्यप. । g) प्रोक्ताध्ययने छण् प्र. उसं. (पा ४, ३, १०२) ।

h) वैप १ द्र. । पाप्र. (५, ३, ६६) = प्रत्यय- । i) सकृत् साम्राज्यस्य रूपम् इत्यस्य स्थाने हिश्रौ २४, ६, १२ साम्राज्यरूपम् इति पाठे. । j) णि इति पाठः? यनि. शोधः (तु. ऋ ५, ८१, २) । k) पाठे. वैप १

रूपे मा ८, ४८ टि. द्र. ।

रूप-विप्रतिषेध- -धात्व् हिश्रौ १, १,  
१६.  
रूप-विशेष- -षैः या ११, ५.  
रूप-वीर्य- -र्याणि वृदे ४, १३४.  
रूप-शब्दा(व्द-ञ्च)विभाग<sup>१</sup>- -गात्  
मीसू ६, ३, १२.  
रूप-शस्त्र (: ) कौसू ११४, २; १२८,  
२; या १४, १९.  
रूप-संयुत<sup>२</sup>- -त्तम् वेज्यो १३.  
रूप-समृद्ध- -द्धम् या १, १६१.  
रूप-संपन्न, ज्ञा- -ज्ञम् वृदे ३, १४४;  
-ज्ञाः निसू ६, ८ : ३८; १० :  
३०; ७, २ : ३; या १, १५;  
१६; -ज्ञानि निसू ८, ११ : २९;  
९, ५ : २३; २७; -ज्ञाम् अप  
१, ४९, ४; ५०, ३; अशां १३, ३;  
४; -ज्ञे निसू ९, ३ : ४१<sup>३</sup>; ५ :  
१८; २६.  
रूप-सहस्र- -सैषु नाशि २, ८, १८०;  
-सैः माशि १६, ३०.  
रूप-सामान्य- -न्यात् पाप्रवा १,  
१६.  
रूप-सौभाग्य-वत्- -वान् विध  
९०, २.  
रूप-स्थानिवद्भाव- -वस्य पावा  
१, १, ५९.  
रूपा(प-अ)जी(व>)वा<sup>४</sup>- -वायाः  
अप १, ४५, ७.  
रूपा(प-अ)तिदेश- -शाः पावा ७,  
१, ९६; -शात् पावा ७, १, ९६;  
४, ९३.  
रूपा(प-अ)दि- -दिभिः वृदे १,  
४७.

रूपान्तरणम् काश्रौसं ४ : १४.  
रूपा(प-अ)न्यत्व- -त्वात् मीसू ६,  
८, ४१; -त्वे तैप्रा २२, २.  
रूपा(प-अ)भेद- -दे पावा ६, ४,  
१२०.  
रूपा(प-अ)वचन- -नात् मीसू २, २,  
३.  
रूपा(प-अ)सिद्धि- -द्धिः पावा ७,  
४, ८५.  
√रूपि पा ३, १, २५.  
रूपस्<sup>५</sup>- > षत्-विन्- > ष्वि-  
तम- -मः पागृ ३, ९, ६१.  
रूपीय<sup>६</sup>- -यः वौश्रौ १५, १ : १४.  
रूपो(प-ऊ)न<sup>७</sup>- -नम् वेज्यो २३.  
रूपो(प-उ)पदेश- -शाभ्याम् मीसू  
३, २, २५.  
रूपो(प-उ)पमा- -मा या ३, १६.  
रूपो(प-उ)पलविध- -विधः मीसू  
२, १, ३.  
१रूप्य<sup>८</sup>- पा ५, २, १२०; -ष्ये  
विध ९९, १०.  
रूप्य<sup>९</sup>- -ष्यम् अप ५, २, ५.  
रूप्य-कुम्भ-निभ- -भाः  
अप ५२, १३, ५.  
रूप्य-चुर<sup>१०</sup>- -रम् विध  
८७, १.  
रूप्यचुरी- -री अप  
९, २, १; -रीम् विध ९२, ८.  
रूप्य-द्रव-समा (म-  
आभा>)म<sup>११</sup>- -अेषु अप ६१,  
१, ५.  
रूप्य-लानृत्-दक्षि  
(ण>)गा<sup>१२</sup>- -णा अप ९, २, १.

रूप्य-दान- -नेन विध ९२, १४.  
रूप्य-भाष<sup>१३</sup>- -षम् विध ५०,  
४४.  
रूप्य-माप-क<sup>१४</sup>- -कः विध ४,  
११.  
रूप्य-सुवर्ण- -र्णेन शंघ ११६ :  
७८.  
२रूप्य<sup>१५</sup>- (>रौप्यायणि- पा. ) पाग  
४, १, १५४.  
रूप्य<sup>१६</sup>- -राय कौसू ३२, १७; अप ३२,  
१, ७; अन्न ७, ११६; अप २ : ७२.  
√रूप्य<sup>१७</sup>, रूप्य<sup>१८</sup> निघ २, १४१.  
√रूप्य<sup>१९</sup> पाधा. भंज्ञा. पर. भूपायाम्.  
रूप्य<sup>२०</sup>- (>रूप्य-र-)  
रूप्य- (>√रूप्य पा. ) पाग  
३, १, २७.  
रूप्य- पाठना ३, ९३.  
रे पाग १, ४, ५७.  
रे<sup>२१</sup> देज्यो १८.  
रे<sup>२२</sup>->रे-वत्<sup>२३</sup>- पावा ६, १, ३७;  
१७२; -रैवत् आश्रौ ४, १२, २;  
आपश्रौ २२, १२, २०; वौश्रौ;  
-रैवतः आश्रौ ८, १, १६; शांश्रौ  
१०, ८, ७; ध्रुसू २, ११ : १७;  
-रैवान् आश्रौ ८, १, १६; शांश्रौ  
१०, ८, ७××; आपश्रौ.  
रैवती<sup>२४</sup>- -रैवती काश्रौ ६,  
५, १०; काठश्रौ ५७; माश्रौ; चा  
१२, ९; -ती गो २, २०१;  
-रैवती आश्रौ ५, १, १९; ८,  
१, १६; शांश्रौ; ग्रामिण ३, ६,  
१ : २३<sup>२५</sup>; वौषि १, ९ : १<sup>२६</sup>;  
द्विपि ७ : १२<sup>२७</sup>; चाअ ४२, ६<sup>२८</sup>

a) द्वस. > पस. । b) पूष. = एक. । c) परस्परं पाभे. । d) विप. > नाप. । e) = रूप. । f) रूपवचनः  
इति लोपान्ते. । g) विप. । प्रशंसांथं छः प्र. वसं. (पा ५, २, १२०) । h) = रजत-दीनार- । i) विकारार्थं प्र. ।  
j) वस. । k) वस. > वृत्. > वस. । l) मलो. वस. > वस. । m) उप. = परिमाणवचन- । n) व्या. ? ।  
o) वप १३. । p) वृ ७५९ f द. । q) = रैवती-नक्षत्र- । r) विप. (२अप्. गो-) । s) पाभे. वप १ रीयते  
अ १०, ५३, ८ डि. द. । t) रैवती इति पाठः? (तु. काठ ८, १७ नृशो.) यति. शोधः ( तु. का १, ३०, १३ ) ।

-ॠन्तीः आश्रौ ४, १३, ७;  
७, ११, ७; शाश्रौ; आपश्रौ ७,  
१५, ७; वौश्रौ ४, ६:३०;  
भाश्रौ ७, १२, ११; वैश्रौ १०,  
१२: ९; हिश्रौ ४, ३, ४७;  
-ॠतीभिः काश्रौ २५, ५, २८;  
आश्र २, ९, ५; माश्र २, ११, १७.

रेवत्य<sup>a</sup>- पा ४, ४, १२२;  
-ॠत्यम् माश्रौ १, २, १, ११;  
वाश्रौ १, २, ४, ८.

२रेवती<sup>b</sup>- पा, पाग ४, १,  
४१; -०ति अशां ५, ६;  
-ती वौश्र १, १, २१; माश्र २,  
१०, ७; अप १, १, २××; -ॠतीः  
आपमं २, २, ३; ७, २७; आपश्र  
१२, ८; काश्र ४१, ५; अप्रा ३,  
४, १; -तीम् अप १, ८, ८; ४१,  
६ॠ; अशां ५, ६; ११, ६; विध  
९०, २६; -त्या कौश्र ३, ५, ९;  
शाश्र ३, १०, १; वाश्र १५,  
१७; अप १, ३०, २; -त्याम्  
कौश्र ३, ६, २; शाश्र; -त्यै शाश्र  
१, २६, २६; वैश्र ३, २०: ११;  
अशां १२, ४.

३रैवत<sup>c</sup>- > ०ती<sup>d</sup>-  
-त्याम् अप १८<sup>e</sup>, ९, १; १८<sup>f</sup>,  
१, २.

३रेवती- पाग ४, १, १४६;  
पावा ४, ३, ३४.

रैवतिक- पा ४, १, १४६;  
पाग ४, ३, १३१.

रैवतिकीय- पा ४, ३,  
१३१.

रेवती-प्रीति- -त्यै विध ९०,  
२६.

रेवती-युत- -ते विध ९०, २६  
४रेवती<sup>d</sup>- -ती वौश्रौ १३, १४:  
९; हिश्रौ २२, ३, ३; निस्र २,  
१२: ३९; -तीः निस्र ४, ४:  
८××; -तीनाम् शाश्रौ १२, ६,  
११; छस्र २, १०: २८; ११:  
१८; -तीभ्यः निस्र ६, ९: ७;  
-तीषु आपश्रौ २२, ६, १०; हिश्रौ;  
-त्यः द्राश्रौ ६, १, ८; लाश्रौ.

रेवती-गर्भ<sup>e</sup>- -र्भम् निस्र ८,  
२: ३७.

रेवती-परोक्ष- -क्षम् निस्र  
४, ४: १८.

रेवती-पृष्ठ- छः लाश्रौ १०,  
१३, १२.

रेवती-संयोग- -गात् निस्र  
६, ६: २३.

२रैवत<sup>f</sup>- -तः आश्रौ ४, १२,  
१; लाश्रौ ७, १, १; -तम् आश्रौ  
८, १, १६; वौश्रौ; या ७, ११;  
-तस्य शाश्रौ १०, ८, ७; लाश्रौ  
६, १०, १२; -ॠताय शाश्रौ ९,  
२७, १; वौश्रौ.

रैवत-गर्भ<sup>e</sup>- -र्भम् शाश्रौ  
१५, ७, ५.

रैवत-पृष्ठ<sup>g</sup>- -छः वाश्रौ ३,  
२, १, ६१; -छम् शाश्रौ १०, ७, १.

रैवत-सामन्<sup>h</sup>- -मा<sup>i</sup>  
वौश्रौ १६, ४: १३; हिश्रौ १६, ३,  
३१<sup>j</sup>; -मानम् आपश्रौ २१, ७,  
१२६; वौश्रौ १६, ३४: १४.

√रेक् पाधा.भ्वा.आत्म.शङ्कायाम्.

रेक्णस्- प्रभृ. √रिच् द्र.

रेख<sup>1</sup>- (> रैख- पा.) पाग ४, १,  
११२.

रेखा-, √रेखाय √रिख् द्र.

√रेज्(वधा.)<sup>1</sup> पाधा.भ्वा.आत्म.दीप्तौ,  
ॠरेजते निघ ३, २९; या ३, २१;  
ॠरेजति निघ २, १४<sup>k</sup>; या १०,  
४२<sup>l</sup>; रेजन्ते या १४, १९.  
रेजयति या १०, ४२<sup>m</sup>.

√रेद् पाधा.भ्वा.उभ.परिभाषणे.

√रेळ्(क्रोधे), रेळते निघ २, १२<sup>n</sup>.

१रेणु<sup>o</sup>- पाउ ३, ३८; पाग २, ४, ३१;  
-णवः वौध १, ५, ५०; -णुना  
अप ५२, ६, १.

ॠरेणु-ककट<sup>p</sup>- -टः आश्रौ ६, १४,  
१८; ९, ५, २; अप ३२, १, १२.

रेणु-वर्ष<sup>q</sup>- -र्वैः अप ७०<sup>r</sup> ११, २५.

२रेणु<sup>s</sup>- -णुः शाश्रौ १५, २६, १;  
ऋअ २, ९, ७०; १०, ८९; साअ  
१, ३३९; ५६०; -णुनाम्<sup>m</sup> आश्रौ  
१२, १४, ६.

रैणव- -०व आश्रौ १२, १४, ६;  
वौश्रौ ३४: २; -वाः वौश्रौ ३४:  
१.

रेणु-वत् वौश्रौ ३४: २.

रेतस्<sup>t</sup>- पाउ ४, २०२; -तः आश्रौ  
२, १६, १९<sup>u</sup>; शाश्रौ; आपश्रौ  
६, ६, १<sup>v</sup>; १०, १३, १०;  
वौश्रौ ४, ६: २५<sup>w</sup>; १३, ३२:  
१७<sup>x</sup>; १८, ९: ३१<sup>y</sup>; ४५:  
२१; २८, १: ३०; २:  
५२; ९: ११; माश्रौ ६, १, ७,

a) वैप १ द्र. । b) = नक्षत्र-विशेष- । c) = पौर्णमासी- । d) = ऋच्-, (तत्रस्थत्वात्) सामन्- ।

वैप १ द्र. । e) वस- । f) विप., नाप. (सामन्-) । मत्वर्थे वा स्वार्थे वा तस्येदमर्थे वा अण प्र. । g) परस्परं  
पाभे. । h) 'मानम् इति संस्कर्तुः शोधः (तु. सप्र. वौश्रौ.) । i) व्यप. । j) तु. BPG. । k) घा. गतौ  
श्रुतिः । l) उप. = वर्षा- । m) बहु. < रैणव- । n) पाभे. वैप १ रेतः तै ३, १, ४, ३, टि. द्र. । o) पाभे.

वैप १, ८७१ b द्र. ।

वैप ४ तु-८०

१६; वाधूश्री ३, १९: २४; ३९:  
 ११; १२; ४२: ४; ४, २४:  
 २; ४; २८: ३; २९: ५-८;  
 ८९: २६; ११६: ३; ११८:  
 ३; ४: ७; ८; वैश्री २१, १:  
 ७<sup>३</sup>; वैताश्री १२, १; आपमं  
 १, १२, ८<sup>१</sup>; कौश्र १,  
 १२, ६<sup>१</sup>; द्राघ २, ५, १३;  
 कौसू २२, ७; अप ३६, ३,  
 १; ४८, ७५<sup>१</sup>; आपघ १,  
 २६, ७; वीध १, ११, ३१; २, १,  
 २८; ३, ७, २; ४; ४, २, १३;  
 हिध १, ७, १८; गौघ २५, १०;  
 ऋश्र २, १, १६६; वृदे ४, १११;  
 ५, १४९; निघ १, १२<sup>१</sup>; या  
 ५, १३; ९, २२; १४, ६<sup>२</sup>; -तस:  
 वीश्री १८, ४५: २६; वाधूश्री ३,  
 ३९: ९; ४, २०: २××; वैताश्री;  
 या ३, ४; १४, ६; -<sup>१</sup>तसा  
 आपश्री १३, २१, ३; आमिगृ  
 ३, ८, २: १७; वीषि १, १५:  
 २७; -<sup>१</sup>तसि द्राश्री ७, ३, ४;  
 लाश्री ३, ३, ४; -<sup>१</sup>तसे आपश्री  
 १६, ३३, १; वैश्री १८, १६:  
 ५७; हिश्री ११, ८, १३;  
 -<sup>१</sup>तांसि वीश्री ८, १४: ३८;  
 जैश्री १९: १८.  
 रेतस<sup>०</sup>- -स: सु १७, १.  
 रेत:पात- -तेन आमिगृ २, ७, ५: १.  
 रेत(स्य>)त्वा<sup>१</sup>- -त्वा<sup>१</sup> जैश्री ११:  
 १३; जैश्रीका १२२; द्राश्री ३,  
 ४, २३; लाश्री १, १२, ८<sup>१</sup>; ६,  
 ३, ४; -स्यामि: वीध २, १, २८;

-स्याम्याम् गौघ २३, २०;  
 -स्याया.<sup>०</sup> लाश्री ७, ११-१२,  
 ३; १३, ७; -स्यायाम्<sup>०</sup> लाश्री  
 ७, ११, ४.  
 रेतस्या-रथन्तरवर्णा- -र्णे लाश्री  
 ७, ११, २१; निसू २, ७: १७.  
 रेतस्-वत्<sup>०</sup>- -वते शाश्री २, ५, १६.  
<sup>१</sup>रेतस्-विन्<sup>०</sup>- -विन्सु वीश्री ५,  
 ४: १७; -वी वीश्री २७, १४:  
 १३.  
 रेतस्-स्कन्दन- -ने वीश्री ४, ११,  
 १; गौघ २३, २०.  
 रेत:-सिच्<sup>०</sup>- -<sup>१</sup>सिक् वीश्री १०,  
 ३१: १४; ३९: २३××;  
 -सिग्भ्याम् माश्री ६, १, ७,  
 १८; -सिच: आपश्री १६,  
 २४, ३; १७, १, १६; वैश्री;  
 -सिचम् आपश्री १७, ४, ३; ७;  
 वीश्री; -सिचौ काश्री १७, ४,  
 २२; वाश्री २, २, १, ११.  
 रेत:सिग्-वेला- -त्यायाम् काश्री  
 १७, ४, २१; ६, ३; ८, २; १०, १७;  
 १२, ६.  
 रेत:-सेक<sup>०</sup>- -कम् या ३, ५.  
 रेत:-स्कन्द- -न्दे अत्र ४०, ६, ६.  
 रेत:-लाव- -व: वैश्री २०, २५: ३.  
 रेतो-देवता-> -त्य- -त्यम् अश्र  
 ६, ११.  
 रेतो-धस्<sup>०</sup>- -पाडभो २, १, ३४४;  
 -<sup>१</sup>षा: काश्री २३, ३, १;  
 आपश्री २२, १९, १; वीश्री.  
<sup>१</sup>रेतो-घा<sup>१</sup>- -घायै कौसू २४, २०;  
 अत्र १८<sup>१</sup>, १, ११.

रेतो-घृप्<sup>१</sup>- -घृक् वागृ १४, १३<sup>१</sup>.  
<sup>१</sup>रेतो-भृत्- -भृत्<sup>१</sup> आपमं १, ३,  
 १४; वीश्री १, ७, ४२.  
 रेतो-मूत्र-पुरीष- -याणाम् वीध ४,  
 ६, ७.  
 रेतो(तस्-अ)वसिक्त- -क्ता: वीध ३,  
 ३, ४; ६.  
 रेतो-विण्-मूत्र-प्राशन- -नम् सुघष  
 ८७: ८.  
 रेतो-विसर्ग- -र्ग: वीश्री २७, १: १  
 १८; -र्गे वैघ २, ९, ९.  
 रेनु<sup>१</sup>- -नु: अत्र ४८, ८५<sup>१</sup>.  
 ✓रेप् पाधा.भ्वा.आत्म.गतौ.  
 रेपस्- ✓रिप् द्र.  
 रेफ- प्रमृ. ✓रिफ् द्र.  
 ✓रेम् पाधा.भ्वा. आत्म. शब्दे.  
 रेभ<sup>२</sup>- पाग ४, १, १०५; -<sup>१</sup>भ  
 शाश्री १२, १४, १; १५, १;  
 -भ: अप ४८, ९७<sup>२</sup>; साश्र १,  
 २६०; २६४××; अश्र २०, ५४;  
 ५५; निघ ३, १६<sup>१</sup>; -<sup>१</sup>भम्  
 अप्राय ६, ९; शैशि २६५;  
 -भागाम्<sup>३</sup> आश्री १२, १४, ७;  
 आपश्री २४, ९, १५; वीश्रीप्र ४२:  
 १; हिश्री २१, ३, १३; -भास:  
 शाश्री १२, १४, १.  
 १रेभ- > रेभा<sup>१</sup>- -<sup>१</sup>भी कौश्र  
 १, ८, २; शाश्र १, १२, ३; वृदे ७,  
 १२३; -भी: वाधूश्री ४, २९: १९.  
 २रेभ<sup>०</sup>- -०भ<sup>०</sup> आपश्री २४,  
 ९, १५; वीश्रीप्र ४२: १.  
 रेभ्य- पा ४, १, १०५; -०भ्य<sup>०</sup>  
 आश्री १२, १४, ७; हिश्री २१,

a) पामे. पृ १४८२. f द्र. 1. b) उदकनामदः। c) विप. > नाप. (अमि-)। d) [=रितः-  
 शब्दवर्ती] ऋच्- ( तँआ १, ३० ऋनुवाकोपलक्षण- [तु. वीध. संस्कर्तुः टि ] )। e) [=पदिग्भवमानस्य हिदृत्ताः]  
 ऋच्-। f) स्याः इति पाठः? यनि. शोधः। g) वैप १ द्र. 1. h) टप. कर्त्तरि कृत्। i) टप. भाप. 1  
 j) टप. धा. धारणे कृतिः। k) परस्परं पामे. 1 l) मेधावि-नामदः। m) षट्. < रेभ- 1 n) = रेभ्य- 1  
 o) परस्परं पामे. 1

३, १३; -भ्यस्य अप ५२, ९, ४.  
 रेम-वत् आपश्चौ २४, ९, १५;  
 वीश्रौप्र ४२: २; हिश्रौ २१, ३,  
 १२.  
 रेम-सूनु- नू ऋअ २, ९, ९९;  
 साअ १, ५५०; ५५१; २, ३६६;  
 ९८१.  
 रेभत्- ✓रिभ् द्र.  
 रेभप<sup>a</sup>->रैभप- -०प वैध ४, ७, २;  
 -पाणाम् वैध ४, ७, २.  
 रेभप-वत् वैध ४, ७, २.  
 रेखिन्- ✓रि द्र.  
 रेखिह्- ✓रिह् द्र.  
 ✓रेख् पावा.भ्वा. आत्म.प्लवगतौ.  
 रेवण<sup>b</sup>->रैवण- -०ण वैध ४, १, ५.  
 रेवण-वत् वैध ४, १, ५.  
 रेवत्- रे- द्र.  
 रेवत- पाग ४, २, ८०; -तम् शंघ  
 ११६: ३५<sup>a</sup>.  
 रैवतक<sup>b</sup>- पा ४, २, ८०.  
 १-४रेवती- प्रमृ. रे- द्र.  
 रेवन्त- पाउभो २, २, १३८.  
 रेशय- -दारिन्- ✓रिश् द्र.  
 रेशी<sup>c</sup>- -शीनाम् वाश्रौ ३, २, ५, ४.  
 ✓रेष् पावा. भ्वा. आत्म. अव्यक्ते  
 शब्दे.  
 रैरेष्<sup>c</sup>- रेट् काश्रौ ६, ८, ११; माश्रौ  
 १, ८, ५, २४; वाश्रौ १, ६, ७,  
 ७; शुअ १, ४०३.  
 रेपण- ✓रिप् द्र.  
 रेहत्.स<sup>d</sup>->रैहाय पा.पाग ३,  
 १, १२.

रेहाण- ✓रिह् द्र.  
 रै<sup>e</sup> पाग १, ४, ५७.  
 ✓रै पावा.भ्वा. पर. शब्दे.  
 ✓रै( भयणे )> रायत्- -यत्सु  
 अप ७२, २, २.  
 रै<sup>f</sup>- पाउ २, ६६; ऋराय: आश्रौ १, ७,  
 ८××; ७, ११, ७<sup>g</sup>; शाश्रौ; ४,  
 १२, ९<sup>h</sup>; वीश्रौ ३, २१:१३<sup>h</sup>;  
 ६, ४: ६<sup>i</sup>; १०, १३: ५<sup>i</sup>; ११,  
 ११: १७<sup>l</sup>; हिश्रौ १३, २, ९<sup>l</sup>;  
 पा ७, २, ८५; ऋराया काश्रौ  
 ९, ६, ९; आपश्रौ १२, १४,  
 १२; वीश्रौ; ऋराये आश्रौ ३,  
 ७, ५××; वाश्रौ १, ४, ३,  
 ३<sup>j</sup>; २३<sup>j</sup>; या ६, २१<sup>k</sup>; १४,  
 २६<sup>k</sup>.  
 ऋरायस-काम- -म: शाश्रौ १२, ४,  
 २४; उस् ३, १, ५, ६.  
 रायस-पोप->थक- पा.) पाग ४,  
 २, ८०.  
 रायसपोप-दा- -दे शुप्र ५, ६<sup>l</sup>.  
 रायसपोप-दावन्- -न्ने वीश्रौ  
 ६, १७: ४<sup>l</sup>.  
 ऋरायसपोप-वनि<sup>m</sup>- -नि: आपश्रौ  
 ६, ६, ८; वीश्रौ ४, ३: ८; आश्रौ;  
 -निम् आपश्रौ १९, ११, ११;  
 वीश्रौ ४, ४: ३३; ६, -२७:  
 ८; १९, २: २०; २३, २: ११;  
 जैश्रौ ६: ११; ८: २२-२४.  
 रायसपोपा(प-आ)दि- -दिषु  
 शौच २, ८०.  
 रायोवाजीय<sup>n</sup>- -यम् लाश्रौ १०,

२, १३; निस्. ३, १०: ६××.  
 रैख- रेख- द्र.  
 रैणव- रेणु- द्र.  
 रैतस- रैतस्- द्र.  
 १-२रैभ- , रैभी- रेभ- द्र.  
 रैवण- रेवण- द्र.  
 १-२रैवत- रे- द्र.  
 ३रैवत (वप्रा.)- पाग ४, २, ८०;  
 -तः अप ४८, १०१<sup>o</sup>; निघ  
 १, १०<sup>m</sup>; -तम् शंघ ११६:  
 ४५<sup>n</sup>.  
 २रैवतक<sup>o</sup>- पा ४, २, ८०.  
 रैवतिक- , कीय- रे- द्र.  
 रो<sup>p</sup> वेज्यो १८.  
 रोद्यत्- ✓रुह् द्र.  
 रोग- प्रमृ. ✓रुह् द्र.  
 रोगीन्<sup>p</sup> आमिप ३, ११, १: १०.  
 रोच- , चिष्णु- प्रमृ. ✓रुह् द्र.  
 ✓रोह् पावा. भ्वा. पर. उन्मादे.  
 रोण- पाउभो २, २, १८४.  
 रोणी<sup>q</sup>->रौण- पा ४, २, ७८; पावा  
 १, १, ७२.  
 रोणु- पाउभो २, २, १८४.  
 रोद- , रोदन- प्रमृ. ✓रुह् द्र.  
 रोदस्<sup>r</sup>->रौदसी<sup>r</sup>- -सी आश्रौ ३,  
 ८, १; ७, ४, ४; शाश्रौ ६, ६, ६;  
 आपश्रौ; ष्टुदे १, ८३; ११३××;  
 कृया ६, १; १०, ४; १०;  
 ११, ९; ४९; १२, २६;  
 ४६; १३, २; -तं श्री कृया  
 ४, ६; ५, २१; -स्यो:  
 वीश्रौ १०, ४: १०<sup>r</sup>; माश्रौ;

- a) व्यप. । b) = पर्वत-विशेष- इति पागम. । c) वैप १ द्र. । d) पाभे. वैप १ मा ६,  
 १८ टि. द्र. । e) पाका. पाठः । f) दाने अनादरे च अव्य. इति पासि. । g) न्युहप्रकारको निर्देशः ।  
 h) पाभे. वैप १, १९७३ d, १९७४-b द्र. । i) पाभे. वैप १ रायः तै १, २, २, १ टि. द्र. । j) पाभे. वैप १  
 राये मा १३, ३५ टि. द्र. । k) वैप २, ३खं. द्र. । l) पर्वत-नामन्. । m) मेघ-नामन्. ।  
 n) = मनु-विशेष- । o) = रोहिणी-नक्षत्र- । p) णिगणः इति शोधः । q) = रोड्डी [ग्राम-विशेष-]  
 इति वापामा. । r) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र. ।

लुम् ३, १० : ३६; वृदे ६, २;  
७, ९.  
रोद(त्त>)सी<sup>३</sup>- सी वृदे  
५, ११७.  
रोद(सी>)सि-प्रा<sup>३</sup>-प्राप् या  
७, २८१.  
रोदितव्य- ✓रुद्र द्र.  
रोध- ✓रुद्र द्र.  
२रोध- ✓रुद्र = (✓रुद्र) द्र.  
३रोध<sup>०</sup> (>रौध- पा.) पाग ४, १,  
११२.  
रोधस्- ✓रुद्र द्र.  
रोध(म् >)सी<sup>३</sup>- सी अप ४८,  
६०१; या ६, १७.  
रोध्र- पाठभो २, ३, २९.  
रोपण- ✓रुद्र द्र.  
रूपोपणा(क>)का<sup>३</sup>- कासु अपथ्रौ  
४, १५, १; माथ्रौ ४, २१, १;  
हिथ्रौ ६, ४, १८.  
रोपमन्यप<sup>०</sup>- पानाम्<sup>०</sup> वैध ४, ६, ४.  
रौपमन्यप- -०प वैध ४, ६, ४.  
रोपमन्यप-वत् वैध ४, ६, ४.  
रोपयिष्यु- ✓रुद्र द्र.  
रोमक- (>रौमक-, कीय- पा.  
चक्र.) पाग ४, २, ११०; ८०.  
रोमन्<sup>१</sup>- पाठ ४, १५१; पाग ४, २,  
८६; ५, २, १००; पावाग ८, २,  
१८६; -म, >मा वैथ्रौ १०, ६ :  
२; ऋप्रा ८, २९१; -मभिः  
वौथ्र ४, ९, ५; -माणि शांथ्रौ  
१८, २४, २०; कौथ्र १, १६, १६;

शांथ्र; या १४, ७.  
रोम-कोटि- -द्यः विध ९६, ८८.  
रोमण्-वत्<sup>३</sup>- वन्तौ या ९, २१.  
रोम-नख- -खानि शांथ्रौ ४, १४, ४;  
वैथ्रौ १, ४ : १; अप ११, १, ३;  
४६, १, ४.  
रोम-वत्- पा ४, २, ८६.  
रोम-वप्- -सा वैध ३, १५, २.  
रोम-श, शा<sup>३</sup>- पा ५, २, १००;  
पाग ४, २, ८०<sup>३</sup>; -शः अप ५२,  
५, २; -रुशम् शांथ्रौ १६, १३,  
१०; आपमं १, ११, ११; -शया  
वृदे ३, १५५; -शा वृदे २, ७७;  
८३; -शाम् वौध २, १, ५७;  
वृदे ३, १५६; -शौ वैथ्रौ ८,  
११ : २.  
रौमशीय- पा ४, २, ८०.  
रोमा(म-अ)ञ- (>ञित- पा.)  
पाग ५, २, ३६.  
रोमा(म-अ)न्त- -न्ते आगृ १, ७, ५.  
२रोमन्- (>रौमण्य-, रौमायण-,  
रौमीय- पा.) पाग ४, २, ८०<sup>३</sup>.  
रोमन्य<sup>१</sup>- (>✓रोमन्याय पा.)  
पा ३, १, १५.  
रोरवण-, रोखवत्-, रोख्यमाण-  
✓रुद्र द्र.  
रोप- ✓रुद्र द्र.  
रोणमन्- १२- द्र.  
रोह- ✓रुद्र द्र.  
२रोह- (>रौहेय- पा.) पाग ४,  
२, ८०.

रोहस्यत- (>रौहस्यति-) राहस्यति-  
टि. द्र.  
१रोहण- ✓रुद्र द्र.  
२रोहण- पाठभो २, २, १८५.  
रोहत्-, रोह-दर्शन- प्रन्., १रोहि-  
✓रुद्र द्र.  
रुहरोहि<sup>१</sup>- ही वौथ्रौ २६, ३१ : १६;  
-ह्योः वौथ्रौ २६, ३१ : १४; १६.  
रोहिण<sup>०</sup>- पाठ २, ५५; पावा १,  
२, ६४; पाग ४, १, ११०<sup>६</sup>;  
-णानाम्<sup>१</sup> आथ्रौ १२, १४, ४.  
१रोहिण- -०ण आथ्रौ १२, १४, ४.  
१रोहिणायन- पा ४, १, ११०;  
-नः शुभ्र ४, १८३.  
१रोहिणी- ✓रुद्र द्र.  
२रोहिणी<sup>०</sup>- पाग ४, १, ११०<sup>६</sup>; १२३;  
२रोहिणायन- पा ४, १, ११०.  
रोहिण्य- पा ४, १, १२३; -यः  
वौथ्रौ १६, २७ : २१.  
३रोहिणी- रोहित्- द्र.  
रोहित्<sup>३</sup>- पाठ १, ९७; -हित्  
वौथ्रौ २६, ३१ : १४<sup>१</sup>; वाधुथ्रौ  
४, ३० : १०; -हितः अप ४८,  
९४<sup>१</sup>; वृदे ४, १४०<sup>३</sup>; निध १,  
१३<sup>१</sup>; १५<sup>३</sup>.  
रोहिद्-अथ<sup>०</sup>- > रौहिद्अथ<sup>३</sup>- अथः  
अथ २, १०, १७९.  
रोहिद्-योजन- -नः वौथ्रौ २६,  
३१ : १४<sup>१</sup>.  
रोहिद्-वत्- वन्तम् वौथ्रौ २६,  
३१ : १६.

a) विप. (अञ्-). सात्यदेवतौयः मण् प्र. । b) वैप १ द्र. । c) व्यप. । d) = रोदसी. ।  
e) बहु. <रौपमन्यप- । f) = बाल- । वैप १ द्र. । g) तु. पागम. । h) अर्थः ? । i) = भक्षित-  
चर्षण- । व्यु. ? मन्य- इति उप. मन्त्रा पूर. <उद्✓गु वा अथ✓गु [निगररो] वेति पाम. प्रन्., रोम- (अर्थः ?)  
इति अभा., रन्- इति P.W. प्रन्. । ✓रुद्र (भक्षणे) + कर्मणि मन्यः प्र. > रौपमन्य- > यनित-  
इति ह्यवा. सद्यप्रयुक्तः सन् ✓घर इत्यस्य भक्षणे इति मतम् । j) अर्थः व्यु. न ? । k) तु. पावा. प्रन्. ।  
२रोहिणी- इति भाष्ये. । l) बहु. <१रोहिण- । m) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र. । n) = अग्नि-वाहन- ।  
o) नदी-नामन्. । p) रुहदश्य- > रौहदश्य- इति पुराणिकः ।

शरोहित,ता ( वप्रा. )<sup>a</sup>- पाउ ३,  
९४; पावा १, २, ६४; -तः  
आपथ्रौ ५, १०, १०; २०, १४,  
११; वौथ्रौ; वाधूथ्रौ ४, १९;  
२९<sup>b</sup>; ३०<sup>b</sup>; आपमं २, १६,  
७<sup>c</sup>; अप ४२, २, ११<sup>d</sup>;  
४८, १४२<sup>e</sup>; -तम् शांथ्रौ ४,  
१६, २; वौथ्रौ; आमिगृ ३, ७;  
१ : २<sup>f</sup>; -ताः याशि २, ३;  
उनिस् ८:६; -तान् आपथ्रौ  
२०, १४, १३; हिथ्रौ १४, ३,  
१८; -तानाम् अपं ४ : ३६;  
-तान्भ्याम् द्राथ्रौ १, ४, ५;  
लाथ्रौ १, ४, ३; -ताय हिय २,  
१६, ४<sup>g</sup>; -ते काथ्रौ ४, ८,  
२××; वौथ्रौ; -तेन ऋआपथ्रौ  
३, ७, ३; ४, १२, ७; वौथ्रौ;  
-तैः<sup>d</sup> अप ४६, १०, २३;  
अथ १९, २३; -तैषु आपथ्रौ  
१७, ५, ३; वैथ्रौ; -तैः<sup>d</sup> कौस्  
९९, ४.  
शरोहिणी<sup>h</sup>- पाग ४, १, ४१;  
पावा ४, ३, ३४; पावाग ८, २,  
१८<sup>b</sup>; -०णि अशां १, ३<sup>g</sup>; -णी  
काथ्रौ ७, ६, १२; आपथ्रौ ५, १८,  
२<sup>g</sup>; २७, ५××; वौथ्रौ; अप १, १,  
२; २-२, १, ११, २<sup>g</sup>; १२, १; ३७,  
२<sup>g</sup>; अशां ७, २<sup>g</sup>; -णीः आपथ्रौ  
२०, २२ : ११; गो २, ३२<sup>g</sup>;  
अप १०, १, २०<sup>g</sup>; काथ्रौ;  
-णीम् शांथ्रौ ४, १४, १३; -णीषु  
विध ७८, ९; -ण्या वौथ्रौ २,  
१२ : २०××; आगृ; -ण्याः अप

५०, ४, २; -णाम् आथ्रौ २,  
१, १०; आपथ्रौ; -ण्यै शांथ्रौ १,  
२६, २<sup>g</sup>; वैथ्रौ ३, २० : ३; अशां  
१२, १; -ण्यौ काथ्रौ २२, १,  
२०.

रोहिणी-कृत्तिका-मृगशिरः-  
पुनर्वसू(सु-उ)त्तरा(रा-अ)नुराधा-  
श्रवण-हस्त-विशाखा- -खासु  
वैथ्रौ १, १ : २.

रोहिणी-गण- -णम् वैथ्रौ ३,  
२१ : १४.

रोहिणी-प्रभृति- -ति वौथ्रौ  
१०, ४६ : १७.

रोहिणी-मृगशिरः-श्रवण-  
श्रविष्ठो(श्रा-उ)त्तर- -राणि मागृ  
१, ७, ५.

रोहिणी-वे(<से)ण- पाग  
८, ३, ९८.

रोहित<sup>d</sup>-चतुर्थ- -र्थस्य अपं ५ :  
११<sup>f</sup>.

रोहित-चर्मन्- -र्म कौस् ७८, १.

रोहित-तूल<sup>l</sup>- -लानि माथ्रौ ३, ६,  
४.

रोहिन-पिपीलिका- -कानाम् कौस्  
११६, ३<sup>g</sup>.

रोहित-वन्- -वः द्राथ्रौ १, ४, ७;  
लाथ्रौ १, ४, ४.

ऋरोहिता(त-अ)क्षि<sup>m</sup>- -क्षिः वौथ्रौ  
१५, २३ : ८; २६ : १०; २६,  
११ : ६; वाधूथ्रौ ३, ८६ : ४.

रोहिता(त-आ)दि- -द्वयः शुथ्रौ ३,  
४२; -दीन् काथ्रौ २०, ६, ५.

रोहितादि-देवता-> ळ्य-

-स्यम् अव १३, १.  
रोहितै(त-ए)त- -ताः वौथ्रौ २४ :  
११ : ८.

ऋरोहित<sup>k</sup>- -०त शांथ्रौ १५, १९, १<sup>o</sup>;  
-तः शांथ्रौ १५, १८, १<sup>o</sup>.

रोहितक<sup>l</sup>- पाग ४, ३, १५२<sup>m</sup>; -कः  
वैथ्रौ १०, १ : ११; -कस्य  
वाधूथ्रौ ४, ६४<sup>n</sup> : १०; -केन  
वाधूथ्रौ ४, ६४<sup>n</sup> : ९.

रोहितक- पा ४, ३, १५२; -कः  
माथ्रौ ७, १, ५; वाधूथ्रौ ४, ६४<sup>n</sup> :  
१०; कागृउ ४० : १७; -कम्  
माथ्रौ १, १, १, ५२; ८, १, ३;  
-काः माथ्रौ १, ५, ७<sup>g</sup>; -कान्  
माथ्रौ २, ३, १, २; हिथ्रौ ८, १,  
३२.

रोहितक-त्व- -त्वम् वाधूथ्रौ ४,  
६४<sup>n</sup> : १०.

रोहितिक<sup>p</sup>- (> रोहितिक- पा.)  
पाग ४, १, ११२.

रोहिद्-अश्व- प्रथ. रोहित्- द्र.

रोहिण्यै √स्व. द्र.

रोहीतक<sup>q</sup>-> रोहीतक- पा ४, ३,  
१५२; -कः हिथ्रौ ४, १, ११; -कम्  
आपथ्रौ ७, १, १६; हिथ्रौ ४,  
१, १२; वौथ्रौ २, ५, १७; २१<sup>g</sup>;  
-काः काठथ्रौ ७; १२०; कागृउ  
४६:६; -कान् आपथ्रौ १२, २,  
८; काठथ्रौ ६; वैथ्रौ १५, २:१४;  
कागृउ ४१ : २.

रौकथ्य<sup>r</sup>- -०थ्य वैथ्रौ ४, १, ५.

रौकथ्य-क- -कानाम् वैथ्रौ ४, १, ५.

रौकथ्य-वत् वैथ्रौ ४, १, ५.

a) वैप १ द्र. । b) =मत्स्य- । c) इव-नामन्- । सपा. पागृ १, १६, २४ सीसरः इति, भागृ २, ७:१८  
लोहितः इति च पाभे. । d) = [अथर्ववेदीय-] त्रयोदश-कारण- । e) = [सूक्त-भाज्-] देवता- । f) सपा. वौषि  
१, १७ : २ लोहितम् इति पाभे. । g) विप., नाप. (नक्षत्र- ) । h) तु. पागम. । i) रोहित् इति पाठः ? यनि.  
शोधः (तु. संस्कृत-रनुवादः) । j) वस. । k) =हरिश्चन्द्र-मुत्र- । l) =वृक्ष-विशेष- । m) तु. पाका. पासि. ।  
ही<sup>o</sup> इति भागडा. पागम. । n) व्यप. ।

रौक्म- -ध्यानाम् वैध ४,३,२.  
 रौक्म- प्रमृ. √रू द्र.  
 रौक्ष- ररू- द्र.  
 रौक्षक- ररूक- द्र.  
 रौक्षायण<sup>a</sup>- -णाः वीथीप्र १ : ४;  
 -णानाम् वीथीप्र १८ : १.  
 रौक्षायणि- ररूक्ष- द्र.  
 रौक्षय- ररूक्ष- द्र.  
 रौक्षय- √रू द्र.  
 रौचनिक- √रू द्र.  
 रौच्य- ररूचि- द्र.  
 √रौह पावा. भ्वा. पर. अनादरे.  
 रौढि<sup>a,b</sup>- (>रौढ्या- पा., पावा.)  
 पाग ४,१, ८०<sup>c</sup>; पावाग ४, १,  
 ७९.  
 रौढीय- ररूढि- द्र.  
 रौण- रौणी- द्र.  
 रौदसी- रोदस्- द्र.  
 रौदेय- रूद- द्र.  
 रौह- प्रमृ. रूद- द्र.  
 रौघ- रौघ- द्र.  
 रौपमन्यप- रोपमन्यप- द्र.  
 रौप्य- प्रमृ. रूप- द्र.  
 रौप्यायणि- ररूप्य- द्र.  
 रौमक-, रूकीय- रोमक- द्र.  
 रौमत्य- ररौमन्- द्र.  
 रौमतीय- रौमन्- द्र.  
 रौमायण-, रूमीय- ररौमन्- द्र.  
 रौरव- ररू- द्र.  
 रौरव<sup>a</sup>- -वम् लाश्री ७,२,१; छुम्  
 ६,२ : ७×४.  
 रौरव-वीधाजय- ये छुम् २,  
 ९ : ५; गौघ २६,९.

रौरव<sup>a</sup>- -वम् विध ४३,४.  
 रौरवक- ररूक- द्र.  
 रौरविन्- ररू- द्र.  
 रौरक- ररू- द्र.  
 रौरकिन्- ररूक- द्र.  
 रौराम- ररूाम- द्र.  
 रौर्यायण<sup>a</sup>- -नाः वीथीप्र ७ : १.  
 रौरक्षति- रोहक्षत- द्र.  
 रौरिण- रोहिण- द्र.  
 रौरिण (वप्रा.)<sup>a,b</sup>- -णः अप ४८,  
 १०१<sup>c</sup>; निघ १, १०<sup>c</sup>; आज्यो  
 १,९<sup>d</sup>; -णम् शाश्री १२, १६,  
 १<sup>c</sup>; सु<sup>1</sup> १३,५; १४,३; -णस्य  
 सु १५, ४<sup>1</sup>; -णे आज्यो २,  
 १०<sup>1</sup>.  
 रौरिण<sup>a</sup>- -णम् काश्री २६,४,१६;  
 ६,१७; आपश्री; -णयोः आपश्री  
 १५, ५, २०; भाश्री; -णस्य  
 वीश्री ९,१२ : १०; -णाभ्याम्  
 दाश्री २,२, ३९; लाश्री १, ६,  
 ३५; -णे जैश्री २३ : ९; १५;  
 जैश्रीका ५५; ६०; -णौ काश्री ४,  
 ६,१५; २६,४,७; १०; आपश्री.  
 रौरिण-कपाल- -लानि माश्री ४,  
 १,२०; -ले काश्री २६, १,  
 २०×४; आपश्री.  
 रौरिण-पिष्ट- -ष्टान् वैश्री १३, १६ :  
 १५; -ष्टानि वीश्री ९, ५ : ९;  
 ६ : १२; १३ : ३; वैश्री १३,  
 १७ : १०; -ष्टैः वीश्री ९, १४ :  
 १७; १६ : ३.  
 रौरिणपिष्ट-लेप- -पेन हिश्री  
 २४, ६, १२.

रौरिणपिष्ट-शेष- -पम् भाश्री  
 ११, १५, २३; -षेण आपश्री  
 १५, १५, १.  
 रौरिण-स्तोम- -मः माश्री ४, ३,  
 ४५.  
 रौरिण-हवन<sup>a</sup>- -ने वाधुश्री ३, १०० :  
 ७.  
 रौरिणहवणी<sup>a</sup>, नी<sup>a</sup>- -नी वीश्री  
 ९, ५ : ३; ६ : १८; १५ :  
 ११; १३; -नीभ्याम् वीश्री ९,  
 ६ : १९; -न्यौ काश्री २६, २,  
 १४; ७, १८; आपश्री १५, १५,  
 १; भाश्री ११, १५, ११; वैश्री  
 १३, ७ : १०; १७ : ६; हिश्री  
 २४, २, ५; ६, १२.  
 रौरिण-होम- -मात् आपश्री १५,  
 ११, ८; भाश्री ११, ११, ९.  
 रौरिणक<sup>a</sup>- -कम् जैश्री २३ : १४,  
 जैश्रीका ६०.  
 रौरिणायन- रोहिण- द्र.  
 रौरिणायन-, रूणेय- ररौरिणी- द्र.  
 रौरिण्य- -ण्याः वीथीप्र ११ : १.  
 रौरितक- रोहितक- द्र.  
 रौरितिक- रोहितिक- द्र.  
 रौरिदश्व- रोहित- द्र.  
 रौरिप- पाठ १, ४७.  
 रौरिप्य<sup>a</sup>- -प्याः वीथीप्र ४९ : ४.  
 रौरितक- रोहितक- द्र.  
 रौरिहय- ररौरिह- द्र.  
 ल  
 ल<sup>a</sup>- लि पा ८, ४, ६०.  
 ल-ना(र-अ)न्त- -न्तस्य पाठ २, २.

a) ध्य१.।

b) &lt;रूड- इति पागम.।

c) तु. पागम.।

d) = साम-विदोप।

e) वैप २, ३३. द्र.।

f) = नरक-विशेष-।

g) वैप १ द्र.।

h) विशेषः टि. द्र.।

i) = पर्वत-।

j) = मेघ-।

k) = सुहृत्-विशेष-।

l) = चन्दन-वृक्ष-।

m) = पुरोडाश-विशेष-

(वैतु. आपश्री. सूची विप.)।

n) = रौरिण-हवनी-।

o) वीश्री ९, ५ : ३ हिश्री २४, ६, १२ पाठः।

p) = १२-।



१ल<sup>३</sup>- लम् शुभ्रा ४, १३; लात्  
शैशि ८७; ले शुभ्रा ४, १३;  
शैशि ९७.

१ल-कार-रः ऋप्रा ६, २०; तैप्रा  
१४, २६; शौच १, ६४; २,  
३५; -रम् तैप्रा ५, २५; शैशि  
२८९; -रस्य शौच १, ४६;  
पावा १, ३, ३; -रात् ऋप्रा ६,  
५; -रे ऋप्रा ४, ८; १४, २७;  
तैप्रा २, ४२; शौच २, ३५;  
शैशि २८९; माशि ९, ७; -रेण  
ऋप्रा १२, ४.

लकार-निर्देश- -शात् पावा १,  
३, ३.

लकार-पूर्व<sup>३</sup>- -वै तैप्रा १४, ७.

लकार-भाव- -वे ऋप्रा १३,  
३५.

लकार-विसर्जनीय- -यौ शौच  
१, ५.

लकार-स्पर्श- -शैः ऋप्रा १२,  
१४.

ल-ज- -जयोः शैशि २९१.

ल-तवर्ग- -मौ तैप्रा १४, २१.

ल-पर<sup>३</sup>- -सौ तैप्रा ५, २५.

ल-म- -मौ अप्रा ३, २, २८.

ल-श-कार- -रयोः माशि ९, १२;  
याशि २, १४.

ल-श-स- -सैः ऋत ५, ६, १०.

ल-स-तवर्ग- -गार्णाम् अप्र ४७,  
२, २.

ल-ह-कार- -रयोः माशि ९, १२;  
याशि २ १४.

२ल<sup>०</sup>- > २ल-कार- -रस्य पावा १,  
१, ५, २, ४, ८, ९; ३, २, १२४.

√लक् √लग् टि. द्र.

लकुच- पाउभो २, २, ७९.

लकुट<sup>१</sup>- -ट्म् अप्र ४०, ३, २; -टैः<sup>०</sup>  
आपश्रौ १०, २, ७, ७; भाश्रौ १०,  
१८, १४.

लकुड- -डैः हिश्रौ ७, २, ८७<sup>०</sup>.

लकुल- (> ल्य- पा.) पाग ४, २,  
८०.

√लक्ष् पाधा. नुरा. पर. दर्शनाङ्क-  
नयोः आत्म. आलोचने, लक्षेत  
अप ५०, १, २.

लक्ष्यते वीध १, ५, ५९; वृदे  
१, ८७; २, ५, ५, १५४; ७,  
१४०.

लक्ष्येत अप ६८, १, ३७; विध  
११, १०; अप्रा ३, १, ३.

†१लक्ष<sup>१६</sup>- -त्तम् शैशि २९०.

लक्ष-बन्ध- -न्धम् विध ९७, ७.

१लक्षण, णा<sup>३</sup>- पाउ ३, ७; -णम्  
आश्रौ २, १४, २५; शाश्रौ ३,  
२०, ५; काश्रौ; काश्रु १, १२;

१४; ७, २; १५; ३२; आपश्रु १, ३;  
१२; २, २; ४, ५; ७; ५, १; १५, ९;

वौश्रु १: १०; १८; १९××;  
-णयोः पावा ३, २, १२६;

-णस्य कौसू ६९, १५; वौश्रु १:  
२५; पा ६, ३, ११५; -णा शाश्रौ

१, १, १०; -णात् अप्र ५०, ३,  
१; या ४, १०; -णानाम् शाश्रौ

१, १७, १३; वौश्रु ४, २, १५;  
-णानि काश्रौ १७, ४, २६; आश्रु

१, ५, ४; काश्रु १४, ३; भाश्रु; -णे  
वैताश्रौ ५, १७; गोश्रु ४, २, १९;

कप्र; पा १, ४, ८४; ३, २, ५२;

-णेन आपश्रु १, ४; १२<sup>५</sup>××;  
वौश्रु; पा २, १, १४; पावा २, ३,  
२१; -णेषु आपश्रु १, १२; हिश्रु १,  
२२; -णैः अप्र ५५, १, ५; २, १;  
३, १; ४, १; ५, १; ६, १; ६२,  
४, ५.

लाक्षण<sup>१</sup>- -णाः भाश्रु १,  
११; १५.

लाक्षणि<sup>१</sup>- पा ४, १, १५३.

लाक्षणिक-पावा ४, २, ६०.

लाक्षण्य<sup>१</sup>- पा ४, १, १५२.

लक्षण-कर्मन्- -र्मणा आपध २,  
२९, १३.

लक्षण-ज्ञ- -ज्ञः अप्र २४, २,  
१.

लक्षण-तस् (ः) ऋप्रा १३, ३१.

लक्षण-त्व- -त्वात् मीसू ३, १,  
१३; ६, ४, २४.

लक्षण-प्रतिकूल- -लम् कौशि  
२३.

लक्षण-प्रतिपदोक्त- -क्तयोः पावा  
६, २, २.

लक्षण-प्रशस्त<sup>६</sup>- -स्तान् गोश्रु २,  
१, २.

लक्षण-मात्र- -त्रम् मीसू ६, ५,  
१४.

लक्षण-लक्षित- -तम् अप्र ३०<sup>३</sup>,  
१, १२.

लक्षण-वत्- -वती माश्रौ ४, १,  
२०; -वन्तः माश्रु २, १४, १४.

लक्षणवती- -त्यः माश्रु २,  
१४, १५; १६; वैश्रु ६७: ८.

लक्षण-संयोग- -गात् मीसू ७,  
१, ४.

a) =वर्ण-विशेष-। b) वस.। c) =लिडादि-। d) नाप. (लघुड-। व्यु. ?। e) परस्परं  
पाप्मे.। f) =लक्ष्य-। g) वैप १ द्र.। h) नाप. (विह-, परिभाषा-, लेखा- प्रम्)। i) =लक्षण-विद्-।  
तद्देवैत्यर्थे अण् प्र. (पा. ४, २, ५९)। j) लक्षणं विशिष्टाद् अपत्ये प्र. (तु. पाषिवा.)। k) वृत्त. वा वस.  
परनिपातो वा।

लक्षण-संपद- -पदा वृदे १, ११.  
 लक्षण-संपन्न, ज्ञा- -ज्ञा कौशु १,  
 १, ८; शांशु १, ५, ६; -ज्ञान् वैश्रौ  
 १२, १ : ४; -ज्ञाम् वैशु ३, २ : १.  
 लक्षण-हेतु- -त्वोः पा, पावा ३,  
 २, १२६.  
 लक्ष(ण >)णा- -णा पावा १,  
 १, ३.  
 लक्षणा(ण-आ)दि- -दिषु पावा  
 २, २, ८.  
 लक्षणा(ण-अ)नुपूर्व- -वान्  
 माश्रौ १, ५, २, १०.  
 लक्षणा(ण-अ)न्त<sup>०</sup>- -न्तम्  
 वैताश्रौ ५, १३.  
 लक्षणा(ण-अ)न्वित- -ताः विध  
 ४५, ३२.  
 लक्षणा(णा<sup>०</sup>-अ)र्थ<sup>०</sup>- > र्था(र्थ-  
 अ)भिसंयोग- -गात् मीसू ११,  
 २, २.  
 लक्षणा(णा<sup>०</sup>-अर्थ >)र्था<sup>०</sup>- -र्था  
 मीसू ३, १, २६; ६, ५, ९.  
 लक्षणार्थ-त्व- -त्वात् मीसू  
 ११, ४, ३०.  
 लक्षण(णा<sup>०</sup>-आ)वृत्<sup>०</sup>- -वृत् गोशु  
 १, १, १०; जैशु १, १ : ३.  
 लक्षणिन्<sup>१</sup>- -गिना काशु १४, ३.  
 लक्षणीय- -यः कौशु ३, १२, १५.  
 लक्षणे(ण-इ)त्यंभूताख्यान-भाग-  
 वीप्सा- -प्सासु पा १, ४, ९०.  
 लक्षणो(ण-उ)पाङ्ग- -ङ्गे अप  
 ६५, १, १.  
 लक्षणो(ण-उ)वेत- -तम् अप  
 ६२, १, ५.

लक्षणो(ण-ऊह >)रू- पा ४,  
 १, ७०.  
 लक्षण्य<sup>०</sup>- -ण्यम् वौश्रौ १७,  
 २९ : ११; पाशु ३, १५, २०;  
 -ण्यस्य हिश्रौ ३, २, ५०.  
 लक्षण्या(ण्य-अ)इवत्य-  
 -त्यस्य वैश्रौ १, ६ : ४.  
 लक्षित, ता- -तम् वृदे १, ८६; -ताः  
 वृदे ८, ८१.  
 लक्ष्म<sup>०</sup>- > लक्ष्म्य- -क्ष्म्यम् कौसू  
 ४२, १९; अश्र १, १८.  
 लक्ष्मण<sup>१</sup>- पाउ ३, ७.  
 लक्ष्मन्<sup>१</sup>- -क्ष्मणि वौश्रौ १५, २९ :  
 ३७<sup>१</sup>; -क्ष्मणि गो २, १५;  
 वौशु ६ : १५.  
 लक्ष्मण- > णा<sup>१</sup>- -ण्णाः  
 आपश्रौ १७, २२, ५; हिश्रौ १२,  
 ६, २६; -णाम् आपश्रौ १६,  
 १३, ९; वौश्रौ २६, १८ : ८;  
 हिश्रौ ११, ५, २०; वौशु ७ : २.  
 लक्ष्य- -क्ष्यम् गौध २२, २.  
 लक्ष्य-ज्ञ<sup>१</sup>- -ज्ञः शंघ २४४.  
 लक्ष्य-लक्षण<sup>१</sup>- -णे पापत्रा १४;  
 पावा ४, २, ६०<sup>m</sup>.  
 श्लक्ष्- √लक्ष् द्र.  
 रलक्ष्<sup>०</sup>- -क्षः अप ३३, ७, ६; -क्षम्  
 अप २६, ५, ८; ३०<sup>३</sup>, २, ९; ६५,  
 ३, ८; शंघ ४५४<sup>३</sup>; -क्षणि  
 विध ९६, ८४; ८८; -क्षान् अप  
 ३०, ४, ४; ७०, ४, १; -क्षे अप  
 ३०<sup>३</sup>, २, १.  
 लक्ष-जप- -पात् अप ३६, २७, १.  
 लक्ष-जाप- -पात् शंघ ४४१.

लक्षजापो(प-उ)त्तर- -रम् अप  
 ३६, २६, १.  
 लक्ष-तस् (ः) अप ३५, २, ६.  
 लक्ष-त्रय- -यम् अप ३६, २२, १;  
 विध ९६, ८५.  
 लक्ष-त्रितय-वर्धन- -नम् अप ३६,  
 २७, १.  
 लक्ष-मित- -तम् अप ७०<sup>३</sup>, ११, ३६.  
 लक्ष-होम- -मः अप ३०<sup>३</sup>, १, १; २;  
 -मम् अप ३०, १, २; ३०<sup>३</sup>, १,  
 १; २; ७०, ३, १; -मस्य अप  
 ३०, १, १; ३०<sup>३</sup>, २, १०; -मान्  
 अप ३५, २, ४; -मे अप २५,  
 २, ५; ३०, ४, १; ३०<sup>३</sup>, १, ४;  
 ३१, ५, ४; -मेन शंघ ४४१.  
 श्लक्ष्ण- √लक्ष् द्र.  
 रलक्ष्ण<sup>०</sup>- (> लाक्षणेय- पा.)  
 पागवा ४, १, १२३.  
 लक्ष्ण-कर्मन्- प्रभृ. √लक्ष् द्र.  
 रलक्ष्मण<sup>०</sup>-  
 लाक्ष्मणि- -णयः वौश्रौ ४१ : ६.  
 लाक्ष्मणेय- पा ४, १, १२३; -याः  
 वौश्रौ ४७ : ४.  
 लक्ष्मण- १ लक्ष्मी- द्र.  
 रलक्ष्मी(वप्रा.)- पाउ ३, १६०;  
 पागवा ५, २, १००; पाग ५, ४,  
 १५१; -क्ष्मीः आपश्रौ ४, १५,  
 ४<sup>१</sup>; वौश्रौः आपमं २, ८, ८;  
 कप्र ३, ६, ३; अप ३१, ३, ५;  
 विध २३, ६१<sup>m</sup>; ९९, ४; ७<sup>m</sup>; या  
 ४, १०<sup>१</sup>; -क्ष्मीम् आमिशु  
 २, ५, ३ : २२; वौशु ३, ७, १७<sup>m</sup>;  
 शंघ ११६; ६५<sup>m</sup>; अश्र ७, ११५;

a) वस्र. । b) = गौजी-वृत्ति- । c) पस्र. । d) = [ प्रकरणातः ] भू-संस्कार- (तु. भाष्यम्) ।  
 e) पस्र. उप. < √जा √वृत् । f) = लक्ष्णज्ञ- । तद्देश्यर्थे इतिः प्र. उलं. (पा ४, २, ६२) । g) मन्वर्थे  
 यन् प्र. । h) = लक्ष्मन्- । i) = चित्- । j) वैप १ द्र. । k) उप. < √जा । l) उप. = सूत्र- ।  
 m) तु. पाका. । n) = संख्या-वचन- । o) व्यप. । तु. पाका. । रलक्ष्मण- इति भाण्डा. प्रभृ. । p) = देवी-  
 विशेष- ।

-क्ष्म्यम् आपमं १, १, ३<sup>३</sup>;  
 वौघ १, १, २४; -क्ष्म्या विघ  
 १, ४३<sup>३</sup>; -क्ष्म्यै काग १७, १;  
 माग २, १३, ६.  
 धलक्ष्मण- पा ५, २, १००.  
 क्ष्मि- (हन् >) श्नी- श्नी आपमं  
 १, १०, ३; ६; वौघ १०, ६, १२;  
 माग १, १९ : १५.  
 क्ष्मी-पति- -०त्ते विघ ९८, २८.  
 लक्ष्मी-प्रद- -दः अप २४, ६, १.  
 रलक्ष्मी<sup>०</sup> > लक्ष्मी-वटशुद्ध-सहदे-  
 वी- वीनाम् वैग ३, ९ : १०.  
 लक्ष्- √लक्ष् द्र.  
 √लक्ष् पाधा. भ्वा. पर. गतौ.  
 √लक्ष्<sup>०</sup> पाधा. भ्वा. पर. सङ्गे; चुरा.<sup>०</sup>  
 उभ. आस्तादने, आसादने.  
 लक्ष- पा ७, २, १८; -क्ष्म वौश्री  
 ९, ३ : १६.  
 लक्ष्- -वः वेज्यो ४४.  
 लक्ष्हा- (> लक्ष्हा- ) लक्ष्हा- टि. द्र.  
 लक्ष्ण- पाठो २, २, ११८.  
 लक्ष्ण- पाठो २, ३, ११०.  
 लक्ष्ण- पाठ १, १३५.  
 लक्ष्ण- > लक्ष्मन्- -मान् कौघ  
 ३, १२, २९.  
 लक्ष्ण- पाठ १, २९; पाग १, १, ३७<sup>३</sup>;  
 ५, १, १२३; पावाग ८, २, १८;  
 -ववः वौश्री २७, ११ : १२;  
 २९, ८ : २१; -घु वौघ ३, ६,  
 १४<sup>३</sup>; ऋप्रा; पा १, ४, १०;  
 -घुः आपश्री २२, ११, ३; वौश्री;  
 -घुनि पा ७, ४, ९३; -घुम् माशि  
 १०, ११; नाशि २, ६, ३; -घुषु

गौघ ३, ३, ३४; द्राग २, ५, ४४<sup>३</sup>;  
 वाघ २२, १५; वौघ ३, १०, १७;  
 ४, १, २; २, २; गौघ १९, १९;  
 -घू याशि २, ५४; -घूनि वाघ  
 २२, १५; वौघ ३, १०, १७; ४,  
 १, १; २, १; गौघ १९, १९;  
 तैप्रा २२, १४; -वोः ऋप्रा २,  
 ३५; पा ६, ४, १६१; ७, २, ७;  
 ४ ९४; पावा ८, २, ८६; -वौ  
 ऋप्रा ८, ३, ६; याशि १, ६४.  
 लाघव- पा ५, १, १२२; -वम्  
 विघ ४२, २.  
 लाघवा(व-आ)पत्ति- -त्तिः  
 मीस् ११, ४, ६.  
 लाघवा(व-अ)र्थ- > र्थिन्-  
 र्थिभिः कप्र ३, ६, १.  
 लघिमन्- पा ५, १, १२२.  
 लघिष्ठ- -ष्ठम् निस् ४, २ : २३; ९ :  
 २; ११; ६, ७ : ९.  
 लघीयस्- -यः कौघ ३, ११, ४५;  
 ऋप्रा १८, ४४; -यसा लाश्री  
 ६, १०, २०.  
 लघु-कण्टारिका<sup>६</sup>- -काः अप १८,  
 १, १६.  
 लघु-गीति<sup>१</sup>- -तीनि. निस् २, ३ : २;  
 १०; १२.  
 लघु-चेतंस<sup>१</sup>- -वसः याशि १, ७४.  
 लघुन्ता- पा ५, १, १२२; -ता  
 तैप्रा २४, ५; -ताम् वौश्री १८,  
 ४७ : २५.  
 लघुन्त्व- पा ५, १, १२२.  
 लघु-पुरः-सर<sup>३</sup>- -राः कप्र ३, ३,  
 १०.

लघुपूर्णभास- -सः अप २०, २,  
 ८.  
 लघुपूर्व- -र्वस्य पावा ६, ४; ५६;  
 -र्वत् पा ५, १, १३१; पा, पावा  
 ६, ४, ५६.  
 लघु-प्रयत्न-तर- -रः पा ८, ३, १८.  
 लघु-मात्र- -त्रात् आश्री ८, १४, ४.  
 लघु-वृत्ति<sup>१</sup>- -त्ति ऋप्रा १८, ६१;  
 -त्ती निस् १, १ : २६.  
 लघु-शान्ति-गण- -णः अप ३२,  
 १, २७.  
 लघु-शान्त्युदक-विधि<sup>२</sup>- -धिना अप  
 ६९, ८, ७.  
 लघु-शास्त्रदोष-तत्त्व-ज्ञ- -ज्ञः  
 माशि ११, ४.  
 लघु-समायुक्त- -क्तम् शैशि २१२.  
 लघु-हस्त<sup>१</sup>- -स्तः शेष २४४.  
 ल(घु >) वृ-तर- -रः शैशि २०२;  
 २०३; याशि २, ५३<sup>३</sup>.  
 लघ्व(घु-अ)क्षर- -रम् ऋप्रा १८,  
 ६१; पावा २, २, ३४; -राणाम्  
 ऋप्रा १८, ६१.  
 लघ्व(घु-अ)र्थ- -र्थम् पाप्रवा ८, १.  
 लघ्वा(घु-आ)शिन्- -शी शंघ  
 ३७२; ४४३.  
 रलङ्का<sup>०</sup> (> एक. लाङ्कायन-;  
 लाङ्काकायनि<sup>१</sup>-, लाङ्केय<sup>२</sup>- पा.)  
 पाग ४, १, ९९; १५८.  
 लङ्क-शान्तमुख- पा, पाग २, ४, ६८.  
 लङ्कव<sup>१०</sup>- (> लाङ्कायनि- पा.)  
 पाग ४, १, १५४.  
 रल(ङ्क >) ङ्का- पाठो २, २, ३१;  
 -ङ्का जैश्रीका १९५<sup>१</sup>.

a) सपा. शौ १४, १, ६२ पुत्रिणीम् इति पाभे. । b) = विष्णु-पत्नी- । c) = लता-विशेष- ।  
 d) या ४, ९; १०; ६, २६ परानृष्टः द्र. । e) √लक्ष् इति [पक्षे] BFG. । f) = आचार्य-विशेष- । g) अर्थः  
 व्यु. च ? । h) वैप १ द्र. । शिक्षाप्रतिशाख्यपाणिनीयेषु पारिभाषिक-संज्ञा- । i) तु. पागम. । j) = अत्य- ।  
 k) = श्रोत्रवि-विशेष- । l) वस. । m) वस. > उस. । n) कस. > पस. । o) व्यप. । p) लङ्कायनि-  
 लाङ्कि- इति भोजः ( तु. पागम. ) । q) अर्थः ? ।

√लङ्, √लङ्ग<sup>१</sup> पाधा. भ्वा. पर. गतौ.

√लङ्घ पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ, भोजन-निवृत्तावपि; चुरा. उभ. भाषायाम्, लङ्घयेत् अप ६८, २, १; विध ५, १६८; ६३, ४२; ५०; ७१, ३६.

लङ्घक- पाठु ४, १२.

लङ्घित, ता- -तम् अप ९, ३, ४; -ता वीध ४, ६, ६.

√लङ् पाधा. भ्वा. पर. लक्षणे.

√लङ् (वधा.) पाधा. भ्वा. पर. भर्जने, भर्त्सने<sup>२</sup>; लुदा. आत्म. व्रीडने; चुरा. उभ. प्रकाशने<sup>३</sup> पर. अपवारणे, लजति<sup>४</sup> निघ २, १४<sup>५</sup>.

ल-ज- १ल- द्र.

√लङ्ग<sup>६</sup> = √लस्त्र

√लङ्ग पाधा. भ्वा. पर. भर्जने; चुरा. उभ. भाषायाम्, हिंसाबलादाननिकेतनेषु प्रकाशने च.

√लद् पाधा. भ्वा. पर. बाल्ये.

लद्वा- पाठ १, १५१.

√लङ् पाधा. भ्वा. पर. विलासे<sup>७</sup>; चुरा. पर. उपसेवायाम्, आत्म. ईप्सायाम्.

लङ्ङुक- पाठो २, २, २६.

√लण् पाधा. भ्वा. पर. जिहोन्मथने; चुरा. पर. लक्षणे, उभ. भाषायाम्.

√लत् (लम्बने)<sup>८</sup>

लता- -ता या ५, २६.

लता(ता-अ)प्र-पलव- -वः वप्र ३, ६, ६.

लता-पलव-संज्ञा(त>)ता-

-ता अप २६, ३, ३.

लत<sup>९</sup>- (> लातायन- पा.) पाग ४, १, ११०.

ल-तवर्ग- १ल- द्र.

लतु<sup>१०</sup>- (> लातव्य- पा.) पाग ४, १, १०५.

लत्तिका- पाठ ३, १४७.

√लप् पाधा. भ्वा. पर. व्यक्तायां वाचि.

लापिन्- -पिनः अप ६८, १, ४०.

लाप्य- पा ३, १, १२६.

ल-पर- १ल- द्र.

लपेत<sup>११</sup>- -०त पाठ १, १६, २४<sup>११</sup>.

लप्सुद्<sup>१२</sup>- > लप्सुदिन्- -दिनः शांश्रौ १५, १, २२.

लव<sup>१३</sup>- -वः ऋअ २, १०, ११९.

लाव<sup>१४</sup>- -वम् वृदे ८, ४०.

लव-सूक- -क्तम् या ७, २.

लवुक<sup>१५</sup>- > लावुकायन- -नः मीसू ६, ७, ३८.

√लम्<sup>१६</sup> पाधा. भ्वा. आत्म. प्राप्ती, लभते आपश्रौ १२, २५, १६; वीश्रौ २, ७: ७xx; लुसू; लभेते निसू ९, ९: १३: १३: २३; अप २९, १, ५; लभन्ते शांश्रौ ७, २५, १७xx; आपश्रौ; लभन्ति अप १, ४३, ४; लभेताम् शंघ २९३; लमस्व शंघ ४५५; लभेत शांश्रौ १३, २४, १६; आपश्रौ २२, १०, २०; वीश्रौ; लभेत् आमिगृ २, ७, ६: १०; १४<sup>१७</sup>; कप्र; लभेयाताम् निसू ९, १३: २४; लभेरन् वीश्रौ २१, १: ९xx; द्राश्रौ; लभेमहि गौपि

२, ५, १२; विध ७३, ३०.

लेभे शांश्रौ १५, १७, १; वीश्रौ १८, ४५: ३; वृदे ६, ६८; ७, ५०; ८, १८; लप्स्यसि मागृ २, ११, ११<sup>१८</sup>;

लप्स्यसि मागृ २, ११, ११<sup>१८</sup>;

लप्स्यसि मागृ २, ११, ११<sup>१८</sup>;

लप्स्यसि मागृ २, ११, ११<sup>१८</sup>;

लभ्यते अप ३६, २, ४; याशि २, ११६; लभ्येत वीश्रौ २०, ३४: ५; वीसू ८९, ३.

लिप्स्यते वीश्रौ ५, १६: २५; लिप्स्यन्ते वीश्रौ ५, १६: २२; वाधूश्रौ ४, १९: ३८; अलिप्स्यत शांश्रौ १५, २४, १<sup>१९</sup>.

लिप्स्येत शांश्रौ ८, ८, ७; वीश्रौ २४, १२: ११: ३३: ९; गोष्ट १, ९, १४; वाध १०, २१; वीध १, ३, ९; २, १०, ४२; गौध १०, ५७; २८, २३; लीप्स्येत आश्रौ १२, ८, २४.

लिप्स्यन्त- -नात् या ४, १०.

लघ्व, वधा- -व्यः वीश्रौ २४, २०: ६; निसू १०, ९: २५; -व्यम् काश्रौ ७, ५, २; गौध १०, ३९; -व्ये वीध ३, ७: २; -व्येन विध २८, ५०; -व्यैः वीध १, ७, ५.

लघ्व-का( म>)मा- -मा विध ९८, ४; १०२.

लघ्व-लक्ष<sup>१८</sup>- -क्षः विध ९७, ७<sup>१९</sup>.

a) या ६, २६ परागृष्टः द्र. । b) तु. BPG. । c) √लङ्, वण्ट् इत्येके इति भागटा. । d) धा. गतौ श्रुतिः । e) या ४, १० परागृष्टः द्र. । f) ईप्सायामिति BPG. । √लङ् इति [पक्षे] भागटा. । g) या ५, २६ परागृष्टः द्र. (तु. SEY[७८]) । h) तु. पागम. । i) = बालप्रद-विशेष- । j) वेष १ द्र. । k) व्यप. । l) = सूफा- । m) पा ७, १, ६४; ६७; ६९; ४, ५४ परागृष्टः द्र. । n) लिं इति पाठः? वनि. शोघः (तु. सपा. काट [९, ७] प्रन्.) । o) पाभे. वेष २, ३८. अलप्स्यत ऐवा ७, १७ टि. द्र. । p) वस. उप. = १लङ्- । q) तच्च लक्षम् इति जीसं? ।

लघ्व-सं(ज्ञा)>ज्ञ<sup>३</sup>-ञम् ऋअ  
२,१०,६०.  
लघ्वा(व्य-अ)दिन्- शी  
शंघ ४३३<sup>३</sup>।  
लघ्वा(व्य-अ)सु<sup>३</sup>०- -सुम् वृदे  
७,१०२.  
लघ्ववत्- -वान् अप ३१, ३, ५;  
वृदे ५, ६६.  
लघ्व- -घा पा ४, ४, ८४.  
लघ्वा वाधूश्री ४, १९: ३९; वैश्री;  
निस् ४, २: ३५<sup>३</sup>।  
लभमान- -नस्य वौश्री २०, ४:  
२७; २४, ३१: ९.  
लभ्य- > लभ्या(भ्य-अ)वगध<sup>३</sup>-  
-धम् वौश्री १७, ४८: १६<sup>३</sup>.  
लभ- -भ: अप ३६, ६, ३; ६८,  
२, १७; -भम् आपघ १, ३, २५;  
हिघ १, १, १००; आज्यो ७, ११;  
-भात् या ४, १०; -भे अप ४८,  
४०; ६८, २, ५६<sup>३</sup>; वाघ १०,  
२२.  
लभ-काम- -मस्य काश्री ४,  
७, ३.  
लिप्सत्- -प्सन्त: विघ ४३, ३७.  
लिप्सा- -प्सा मीसू ४, १, २;  
-प्सायाम् पा ३, ३, ६; ४६;  
पावा १, ३, २५.  
लिप्सितुम् अप १, ९, २.  
लिप्सित्वा द्राश्री १३, ३, ६; लाश्री  
५, ३, ९.  
लिप्स्यमान- > ण-सिद्धि- -द्वौ  
पा ३, ३, ७.  
लभस- पाठ ३, ११७.

लभ्य- प्रसृ. √लम् द.  
२लभ्य- (>लभ्य-पा.)लघ्व- टि. द.  
√लम् (√=रम्), ललाम सु २२, ३.  
ल-म- १ल- द.  
लमक<sup>३</sup>- पाठ २, ३३<sup>३</sup>; पाग २, ४,  
६९; ४, १, ९९; -का: १ वौश्रीप्र  
२३: १.  
लामकायन- पा ४, १, ९९; -न:  
द्राश्री १२, १, ३६; लाश्री ४, ९,  
२२; ६, ९, १८××; निस् ३, १२:  
२८; १३: ३८××; वृदे ३, ४७;  
-ना: वौश्रीप्र ३१: ३.  
लामकायनिन्- पा ४, ३, १०५;  
-निनाम् काठश्री २४.  
√लम्<sup>३</sup> पाधा. भ्वा. आत्म. शब्दे  
अवसंतेन च, लम्बते वाधूश्री ४,  
६४: ६; १०; सु ७, १; लम्बन्ते  
वाघ १६, ३२.  
लम्बयति हिश्री १६, ६, ३२.  
लम्ब- -म्बम् कप्र १, १, ३.  
लम्ब-कर्मन्<sup>३</sup>- -मंग: या ५, २६.  
लम्ब-चूडक<sup>३</sup>- -क: या १, १४.  
लम्बो (म्ब-उ) द<sup>३</sup>३- -र:  
वौश्रीप्र २२: २; -रम् वौघ २,  
५, २१<sup>३</sup>.  
लम्बो(म्ब-ओ)ष्ट<sup>३</sup>- -ष्ट: शैशि  
१६०; पाशि २७; माशि १५,  
२; याशि १, २६; नाशि २, ८,  
१२.  
लम्बन<sup>३</sup>- > ण-स्तन<sup>३</sup>- -नान्  
आपमं २, १३, १२; आमिष्ट २,  
१, ३: २१; भाग १, २३: १३;  
हिष्ट २, ३, ७<sup>३</sup>।

लम्बमान- -नम् सु ७, १; -ना:  
विघ ४३, ४२.  
२लम्ब- > लम्बा-विश्ववयस्<sup>३</sup>-  
लय- √ली द.  
√लर्च<sup>३</sup> पाधा. भ्वा. पर. गतौ.  
√लत्<sup>३</sup> > लालन<sup>३</sup>- -ना: अप  
६८, १, १०.  
ललाट<sup>३</sup>- पाग २, ४, ३१; ५, २, ९७;  
-टम् शाश्री २, १२, १: ४; काश्री  
६, ४, १०; काग; -टात् माशि  
१, १२; नाशि १, ५, ६; भास  
३, २३; -टानि वैश्री १७, ११:  
६; -टे शाश्री १६, ३, २९;  
आपश्री.  
लालाटिक- पा ४, ४, ४६.  
ललाटं-तप- पा ३, २, ३६.  
ललाट-प्रमा(ण>)णा<sup>३</sup>- -णाम् अप  
३०<sup>३</sup>, २, २.  
ललाट-संमित- -त: शांय २, १,  
२२; पाग २, ५, २८; कप्र ३, ८,  
१२; वाघ ११, ५६.  
ललाट-हृद्-वाहु-कण्ठा(रठ-आ)-  
दि- -दीन् वैष्ट १, २१: ८.  
ललाटां(ट-अ)स-श्रोणि- -णिषु  
काश्री ६, ४, २.  
ललाटा(ट-अ)क्षि-नाण्ड- -ण्डे विघ  
९६, ७४.  
१ललाटा( ट-अ)न्त- > ण्तिक-  
-क: कौष्ट २, १, २२<sup>३</sup>.  
२ललाटा(ट-अ)न्त<sup>३</sup>- -न्त: वैष्ट २,  
४: ३<sup>३</sup>.  
ललाटा(ट-अ)भिमर्शन- -नात् काग  
३६, २.

a) वस. । b) ञ्शी: इति पाठ: ? यनि. शोध: (तु. ४४३ लघ्वाशी इति पाभे.) । c) उप. = प्राण-।  
d) पाठ: ? लघ्व- > -घा इति शोध: (तु. संत्कर्तु: टि.) । e) तु. पृ २५७ f) भूयान् मूको. पाठ: ।  
g) व्यप. । h) <√लम् । i) बहु. > लामकायन- । j) या ६, २६ परामृष्ट: द्र. । k) कर्त्तरि कृत् ।  
l) = बालप्रह-विशेष- । m) लम्बस्त<sup>३</sup> इति पाठ: ? यनि. शोध: (तु. आपमं. प्रसृ. संत्कर्तु: टि. च) ।  
n) पृ १७९२ j द्र. । o) पृ २०९८ f द्र. । p) वैष्ट द्र. । q) परस्परं पाभे. ।

ललाटिक<sup>a</sup> - कात् आप्रथौ ११, ४, १२.  
 लला ( ट-क > )टिका- पा ४, ३, ६५.  
 ललाटूल- पात्रा ५, २, ९७.  
 ललाम<sup>b</sup> - मः वौश्रौ १८, ३० : ७;  
 -मम् काश्रौ २०, १, ३१; -मान्  
 माश्रौ ५, २, १०, ४४.  
 ललानी<sup>b</sup> - मी वौश्रौ १८,  
 ३० : ७; -मीम् वौश्रौ २३,  
 १८ : ३७.  
 ललामिक- पा ४, ४, ४०.  
 ललाम-गु<sup>b</sup> - गुम् शौश्रौ १२, २४,  
 २; १६, ४, ६; लाश्रौ ९, १०, ६.  
 ललामन्- पाठभो २, १, २८५.  
 ललव (> लव-स-पा.) पाग ४, २, ८०.  
 ललव<sup>c</sup> - वः, -वाः आच्यो १, ४.  
 ललवक- √लू द्र.  
 ललवङ्ग- पाठ १, १२०.  
 ललवण, पा<sup>d</sup> - पा ४, ४, २४; पाग १,  
 ४, ७४; पा, पाग ५, २, १२७; -णम्  
 वौश्रौ २, २० : ४; २८, ८ : ४;  
 द्राश्रौ १, १, १२; लाश्रौ; -णस्य  
 कौसू ६८, ११; अय ३६, १०, २;  
 ६८, २, ४६; -णाभिः वौष १,  
 ५, १४; -णेत अय ३५, १, ११;  
 वाघ २, २७.  
 लावगिक- पा ४, ४, ५२.  
 लवग-कृताक- -रयोः गौष ७, १९.  
 लवग-होवा (व-घ्रा)सद-नपुंसक-  
 कार्पास-रज्जु-निगाड-मुक्तकेश-  
 -शाम् विष ६३, ३८.  
 लवगं/कृ पा १, ४, ७४.

लवण-जल-निधि- -धिम् अप ६८,  
 ३, १०.  
 लवण-तैल-पिण्याक-जीविन्- -वी  
 वैष ३, १४, ६.  
 लवण-तैल-विक्रेतृ- -ता वैष ३,  
 १३, १२.  
 लवण-प्रदान- -नेन विष ९२, १८.  
 लवण-मिश्र- -श्रेण आपृ १८, १;  
 -श्रैः अप ३५, १, ९.  
 लवण-मृडीची- -चीः कौसू ४७,  
 ४६.  
 लवण-वर्जम् वायु ४, २४.  
 लवण-व्यञ्जन- -नानि वाघ १४, ३१.  
 √लवणस्य पा, पात्रा ७, १, ५१.  
 लवण-हिङ्गु-लघुन-मधु-मत्स्य-  
 मांस-पृत्यजा ( क-अ )न्य-परस्पर-  
 शीत-परवाग्-वर्जिन्- -जी वैष  
 १, ७, ३९.  
 लवणा ( ए-अक > )का- -क्ताम्  
 चाशि १, ३८.  
 लवणा ( रा-आख्या > )ख्य- -ख्येन  
 नाशि २, ८, ६१.  
 लवणा ( ए-आ )दि- -दिषु शंभ २२७  
 √लवणि पा ३, १, २१.  
 लवणो ( ण-उ )दक<sup>e</sup> - -कम् शंघ  
 ११६ : ७.  
 लवणो ( ए-उ )दक-मिश्र- -श्रेण भाग  
 २, ७ : ५; हिण् २, ७, २.  
 लवणो ( ए-उ )दृष्ट- -तः वौष २,  
 १, ५६.  
 ललवण<sup>b</sup> - पाग ५, १, १२३; -णाः अय  
 ६८, १, १०.  
 लावण्य- पा ५, १, १०३; -ण्यम्

विष ९२, १८.  
 ललवण- (> णी<sup>f</sup> - पा.) पाग ४,  
 १, ४१.  
 ललवण-, -न- √लू द्र.  
 ललव<sup>g</sup> - (> ली- पा.) पाग ४, १,  
 ४१.  
 ललाक- पाठना ४, १४.  
 ललाणक- पाठ ३, ८३.  
 ललानक- पाठभो २, २, ३४.  
 ललि- पाठ ४, १३९.  
 ललित्र- √लू द्र.  
 लल्यारु<sup>h</sup> - -दः वौश्रौ ४२ : २.  
 ल-श-कार-, ल-श-स- १८- द्र.  
 लल्युन- पाठ ३, ५७; पाग २, ४, ३१<sup>k</sup>;  
 -नम् वैष २, १५, ५.  
 लल्युन-गृजन-पलाण्डु-कुम्भीक-  
 धादसूतकाल-मधु-मांस-मूत्र-  
 पुरीष-नेतो ( तस्-अ )नेष्य-  
 मक्षण- -णे सुघ २१<sup>l</sup>; २२<sup>l</sup>.  
 लल्युन-पलाण्डु-क्याकु-गृजन-रले-  
 प्मान्तक-वृक्षनिर्यास-लोहित-  
 द्रश्चन-धकाकावलीट-मृद्वोच्छे-  
 पण-मोजन- -नेषु वाघ १४,  
 ३३.  
 लल्युन-पलाण्डु-गृजनक-कुम्भीका -  
 ( क-आ )दि- -दीनान् सुघ ८७:  
 ८.  
 लल्युन-पलाण्डु-गृजन-चूर्म-कुक्कुट-  
 मक्षण- -णे काघ २७४ : ३.  
 लल्युन-पलाण्डु-गृजन-उत्राक-  
 नालिप्त-विद्वराह-प्रानकुक्कुट-  
 नख-रोम-मांस-मक्षण- -णे शंघ  
 ४१८.

a) वि. ( मृदु- ) । तत्रमधीयः प्र. । b) वैष १ द्र. । c) = कल-वचन- । < √लू इति  
 अभा. । d) वि. , ना. । e) 'पृत्यन्धान्यान्लपरस्परशीतपरपाक' इति C. । f) 'णाप्येन' इति कालि. ।  
 g) = समुद्र-विशेष- । वस. । h) = सुन्दर- । i) = श्लेषवि- इति पागम. । j) द्र. पागम. ।  
 k) च्य. । l) लल्युनं जगदलण्डुकुम्भीकः धादसूतकाः । न मधु इति पाठः ? वनि. समुद्रितः गोषः ( सु.  
 शंभुः इति. अतराईः ) ।

लशुन-पलाण्डु-गृह्जन-विड्वराह  
ग्रामकुनकुट-कुम्भीक-भक्षण-  
-गे शंघ ४२१.

लशुन-पलाण्डु-गृह्जनै(न-ए)तद्वन्धि-  
विड्वराह-ग्रामकुनकुट-वानर-गो-  
मांस-भक्षण<sup>a</sup>-गे विध ५१,३.

लशुन-पलाश(? राडु<sup>b</sup>)-कुम्भी-नव-  
श्राद्धसूतिका(?काल<sup>b</sup>)मधु-मांस-  
मूत्र-रेतो(तस्-अ)मिध्य-भक्षण-  
-गे सुधप ८३: १.

✓लपू<sup>c</sup> पाधा. भ्वा. उभ. कान्तौ;  
चुरा.<sup>d</sup> उभ. शिल्पयोगे (शिल्पो-  
पयोगे) > लपण- पा ३, २,  
१५०.

लापुक- पा ३, २, १५४.

लाप्व- पाउ १, १५३.

✓लस<sup>d</sup> पाधा. भ्वा. पर. श्लेषणकीड-  
नयो: > लालसा-सायाम्  
पावा ७, १, ५१.

ल-स-तवर्ग- १ल-द्र.

लसुप- पाउना ४, ७९.

✓लस्ज् पाधा. तुदा. आत्म. व्रीडने.

लस्पूजनि<sup>e</sup>->°नि-प्रतिह(त>)

ता-तया काश्रौ ८, ४, १८.

लहकां- पाग ४, १, ९६<sup>f</sup>; पावाग ७,  
३, ४५<sup>g</sup>.

लाहकि- पा ४, १, ९६.

ल-ह-कार- १ल-द्र.

लह्य<sup>h</sup>- (>लाह्य-पा.) पाग २, ४,  
६३<sup>i</sup>; ४, १, ११२.

✓ला पाधा. अदा. पर. आदाने  
दाने<sup>j</sup> च.

लाक्षण-, णि-प्रभृ. ✓लक्ष् द्र.

लाक्षणेय- रलक्षण- द्र.

शलाक्षा<sup>k</sup>- पाउभो २, ३, १९१; -क्षया  
वाध २, २७; -क्षाम् अत्र ५, ६;  
-क्षया: शंघ ४०५.

लाक्षारक्त- -क्तम् शैशि २२४;

याशि २, ७६; -क्तेन कौसू ७६, ८.

लाक्षा-रुधिर-संकाश- -श: अप  
५०, ६, ५.

लाक्षा-लि(ङ्ग>)ङ्गा<sup>l</sup>-ङ्गाभि: कौसू  
२८, १४.

लाक्षा-लोहित-वर्ण- -त्व- -त्वम्  
अप ६४, ५, ७.

लाक्षिक- पा ४, २, २; -कम् अत्र  
५, ५<sup>m</sup>.

रलाक्षा<sup>n</sup>- -क्षा वृदे १, १२९; २, ८४.

लाक्ष<sup>o</sup>- -क्षम् वृदे ८, ५१.

लाक्षमणि-, णेय- रलक्ष्मण- द्र.

✓लाख् पाधा. भ्वा. पर. शोषणालम-  
र्थयो:.

लागहि- लगहा- द्र.

✓लाघ् पाधा. भ्वा. आत्म. सामर्थ्ये.

लाघव- लघु- द्र.

लाङ्कायनि- लङ्कव- द्र.

लाङ्कायनि-, लाङ्कान- १लङ्क-  
द्र.

लाङ्कि- १लङ्क- टि. द्र.

लाङ्केय- १लङ्क- द्र.

शलाङ्गल<sup>k</sup>- पाउ १, १०८; -लम्  
आपश्रौ १६, १८; ६; १९,  
२१; बौश्रौ; या ६, २६<sup>r</sup>फुं;  
-लयो: कौसू ९३, १४; -लानाम्

अप ६४, २, ६; -ले कौसू १०६,  
१; -लेन बौश्रौ १८, २०: ५;  
-लेभ्य: कौसू २७, ११<sup>r</sup>.

लाङ्गल-वन्ध- -न्धम् माश्रौ २, १,  
४, ५.

लाङ्गल-योजन- -नम् पागृ २,  
१३, १.

लाङ्गल-वृत्ति<sup>l</sup>- -त्ति: काध २७०: ६.

लाङ्गल-स्थाधिन्- -यी अप५०, ६, ३.

लाङ्गल-हल-चक्र-पतन- -ने काध  
२७६: ११.

१लाङ्गलिन्- -ली अप ५०, ४, ५;  
५, १.

लाङ्गलीपा- पावाग ६, १, ९३.

लाङ्गले-गृह्य<sup>p</sup>

लाङ्गले(ल-ई)पा- -पा शाश्रौ १४,  
४०, ८; काश्रौ २२, ३, ४८;

आपश्रौ २२, ३, ७; लाश्रौ ८, ३,  
६.

लाङ्गलय, ल्या<sup>q</sup>- -ल्यम् बौश्रौ १८,  
३०: २; -ल्यस्य बौश्रौ १८,  
२०: २; -स्याम् बौश्रौ १८,  
२१: १३; १४.

लाङ्गलायन<sup>h</sup>- -ना: चव्यू ३: ५.

लाङ्गलि<sup>h</sup>- -लि: अप्राय २, २; ३.

रलाङ्गलिन्<sup>h</sup>-> रलाङ्गल<sup>r</sup>- पावा  
६, ४, १४४.

लाङ्गूल->ले-गृह्य<sup>p</sup>

लाङ्गूल<sup>k</sup>- पाउ ४, ९०; -लम् बौश्रौ  
१६, २०: ११; या ६, २६<sup>r</sup>फुं;  
-लेन शाश्रौ १७, ५, १०.

लाङ्गूल-गृह्य<sup>p</sup> पाग २, १, ७२.

a) 'आम्य' इति जीसं. b) पाठ: ? यनि. शोध: । c) या ४, १० पा ३, १, ७० परामृष्ट: द्र. ।

d) ✓लस इति [पक्षे] BPG. । e) नाप. (Lवृहत्काष्ठमयी-सूची-) । f) तु. पागम. । g) लगहा- इति

पागम., हलका- इति पासि. [चौसं.] । h) व्यप. । i) रलभ्य- इति पाका. । j) चन्द्रमतम् (तु. पासि.) ।

k) वैप १ द्र. । l) वस. । m) साऽस्यदेवतार्थे ङ्क प्र. । n) [=मध्यमस्थानीय-] देवता-विशेष- । o) तस्येद-

मीय: अण् प्र. । p) तु. पाका. । लाङ्गुलेगृह्य, लाङ्गूलगृह्य इति भारडा. । q) तस्मैद्वितीय: यत् प्र. ।

r) =शाखाध्याधिन्- ।

लाङ्गूल-वत् या ६, २६.

✓लाङ्ग<sup>a</sup> पाधा. भ्वा. पर. भर्जने, भर्त्सने च.

लाज, जा<sup>b</sup> - जा: वौश्रौ १७, ३१ : १४; वाश्रौ ३, २, ७, ३; मागृ; या ६, ९६; -जान् आपश्रौ १२, ४, १०; १३<sup>c</sup>; २०, १०, ५; वौश्रौ; कौश्र १, ८, २३<sup>c</sup>; शांगृ १, १४, ११<sup>c</sup>; वौश्र १, ४, २६<sup>c</sup>; मागृ १, १६ : १५<sup>c</sup>; मागृ १, ११, १२<sup>c</sup>; वागृ १४, १८<sup>c</sup>; हिगृ १, २०, ४<sup>c</sup>; जैगृ १, २१ : २२<sup>c</sup>; या ६, ९६; -जानाम् काश्रौ १९, १, १८; वौश्रौ १७, ३१ : १९; गोश्रौ; -जेम्यः आपश्रौ १२, ४, १४; -जेपु कौश्र १, ८, २२; -जैः आपश्रौ २०, १०, ६; वौश्र १, ६, १७<sup>c</sup>; अप ४४, ३, १०; शंघ २१८.

लाज-चूर्ण- -र्णानि काश्रौ १९, १, २७.

लाज-पूरण- -णम् वैश्र ३, ३ : ११.

लाज-होम- -मः कागृ २५, ३४; -मम् वैश्र ३, ४ : २.

लाजा-चर्मन्<sup>d</sup> - -र्माणि वौश्रौ १५, १६ : ३.

लाजा-धा(र>)री<sup>e</sup> - -र्याः मागृ १, १०, ४; -र्यै मागृ १, ११, १०.

लाजा(ज-अ)ञ्जलि- -लिना वैश्र ३, ३ : ९.

लाजा(ज-अ)दि- -दि पागृ १, ७, ४.

लाजादि-संभार-वर्जम् आमिगृ

१, ६, ३ : ५९.

लाजा(ज-अ)तुले(पक>)पिका-  
-काः अप १, ३४, ५.

लाजा(ज-अ)र्थ- -र्थम् आपश्रौ १२, ४, ९; हिश्रौ ८, १, ५२; -र्यान् आपश्रौ १२, ४, ५; ८; वैश्रौ १५, ४ : १०; हिश्रौ ८, १, ५१.

लाजा(ज-अ)हुति, ती- -तिम् वौश्र १, ११, ४; -तीषु वागृ १४, ७.   
तंलाजि<sup>b</sup> - -जी ३न् काश्रौ २०, ५, १८; आपश्रौ २०, १६, १९; वौश्रौ.

✓लाञ्छ पाधा. भ्वा. पर. लक्षणे.

लाञ्छन- -नात् या ४, १०.

✓लाञ्ज पाधा. भ्वा. पर. भर्जने भर्त्सने च.

लाट्- (> ✓लाट्य पा.) पाग ३, १, २७.

लाडि<sup>f</sup> - (> लाड्या- पा.) पाग ४, १, ८०; पावाग ४, १, ७९.

लातव्य- ल्तु- द्र.

लातायन- लत- द्र.

लान्द्र- (> लान्द्रक- पा.) पाग ५, ४, २९.

लापिन्, लाप्य- ✓लप् द्र.

लाव- लव- द्र.

लावुकायन- लवुक- द्र.

लाभ- प्रमृ. ✓लभ् द्र.

लाभ्य- रलभ्य- द्र.

लाभ्यस्त्वेत्येनातमापयति वाश्रौ ३, ४, ३, ४९.

✓लाम् पाधा. चुरा. उभ. प्रेरणे.

लामकायन- लनिन्- लमक- द्र.

लाय- ✓ली द्र.

लालन- ✓लल् द्र.

लालसा- ✓लस् द्र.

लाला-> लाला-प्रकोप- -पः वैश्र ३, १० : २.

लालाटिक- ललाट- द्र.

लालामिक- ललाम- द्र.

लाव<sup>g</sup>- पाठभो २, ३, १२७.

लाव-क<sup>b</sup> - -कम् शंघ २२३.

शलावक<sup>f</sup> - (> कायनि- पा.) पाग ४, १, १५४.

लावणिक- लवण- द्र.

लावण्य- रलवण- द्र.

लावर्णि<sup>i</sup> - -र्णिः वौश्रौप्र ४२ : २.

लावेरणि<sup>j</sup> - (> णीय- पा.) पाग ४, २, १३८.

लापुक- ✓लप् द्र.

लाहकि- लहका- द्र.

लाह्य- लह्य- द्र.

लिक्षा(वप्रा.)<sup>l</sup> - पाठभो २, ३, १७०; पावाग ८, २, १८<sup>k</sup>; -क्षा विघ ४, २<sup>l</sup>.

✓लिख् (वधा.) पाधा. तुदा. पर. अक्षरविन्यासे, लिखति काश्रौ ५, ३, २२; ४, ९; १७, ३, १०; आपश्रौ १, २५, १४; वौश्रौ; लिखेत् वौषि ३, ९, २; अप १९<sup>2</sup>, २, ४; शंघ २४३; काश्रु ७, ३८; आपश्रु १६, १०.

लिखेत् वौश्रौ १८, १९ : ६<sup>m</sup>; तंलेखीः काश्रौ ६, १, १६;

आपश्रौ ७, २, ७; वौश्रौ ४, १ : २३; भाश्रौ ७, २, १.

लिखक- पाठना २, ३२.

a) या ६, ९ परानृट् द्र. । b) वैप १ द्र. । c) पाभे. पृ ११९० ० द्र. । d) उप. = [चर्ममय-] पात्र-विशेष- । e) उप. कर्तरि <ष्ट । f) व्यप. । g) = पक्षि-विशेष- । < ✓लृ इति श्रमा. । h) स्वार्थे कः प्र. । i) < लावेरण- < लाव- इति पागम. । जौवेरणि- इत्यन्यः (तु. पागम.) । j) नाप. । व्यु. ? < ✓रि(लि)र् इति पाठभो.; < ✓रिमा इति पाठभु ३, ६६; < ✓लक्ष् इति श्रमा. । k) तु. पागम. । l) = [प्रन्नेषु-द्वयक-] परिमाण-विशेष- । लिख्या इति जीसं. ।



लिखत्- -खन्तौ माश्रौ २, ४, १, १२.  
 १लिखित- -तम् वाध १६, १०;  
 विध ३, ८२; ६, २३; २५; ७, ४; ९  
 लिखित-पाठक- -कः शैशि  
 २०२.  
 लिखिता(त-अ)र्थ- -र्थे विध ६,  
 २५<sup>०</sup>.  
 -लिखित<sup>१</sup>- -तम् शंघ ११६: ४१;  
 -वाय वैगृ २, १२: १४.  
 लिखित्वा आपश्रौ १९, ११, ६;  
 भाश्रौ १, २६, १०; हिश्रौ; कप्र  
 १, १, १४<sup>०</sup>.  
 १लेख, खा<sup>१</sup>- पाग ३, १, २७; ३,  
 १०४; पावाग ८, २, १८<sup>०</sup>;  
 -खयोः काश्रु १, २; -खाः काश्रौ  
 २, ६, २०; आपश्रौ १, २, १४;  
 ९, २०, ९; १९, ११, ६; १०;  
 १४, २; वौश्रौ; हिध २, १, १३<sup>१</sup>;  
 -खान् मागृ २, १४, ६; -खानाम्  
 माश्रौ १, २, ४, ८; -खाम् आश्रौ  
 २, ६, ९; १४; आपश्रौ; द्रागृ १,  
 २, २<sup>१</sup>; आपश्रु १८, ८; वौश्रु १:  
 १०; हिश्रु ६, १३; -खायाः  
 आपश्रौ १९, ११, ६; हिश्रौ २३,  
 २, ६; -खायाम् काश्रौ ४, १,  
 ११; आपश्रौ १९, १२, १; वौश्रौ;  
 -खासु वौश्रौ १, १०: १४;  
 माश्रौ १, २, ४, ३; वैश्रौ ४, १०:  
 १६; -खे शाश्रौ १७, १०, ४.  
 लेखा(खा-आ)दिक- -कम् अप

३०<sup>२</sup>, १, १४.  
 लेखा(खा-अ)धिकार- -रः  
 आपश्रौ १६, ३४, १; वैश्रौ १८,  
 १६: ४५.  
 लेखा(खा-अ)न्त- -न्तयोः  
 आपश्रु ९, १; हिश्रु ३, २१; -न्ते  
 माश्रौ १, २, ४, ९.  
 लेखा(खा-अ)न्तराल- -लेपु  
 वौश्रौ १९, ३: ३२.  
 लेखा-प्रभृति<sup>१</sup>- -तिभिः द्रागृ १,  
 ४, ३.  
 लेखा-भ्र<sup>१</sup>- पा, पाग २, ४, ६९<sup>१</sup>;  
 ४, १, १२३.  
 लेखा-भ्र<sup>१</sup>- (> लैखाभ्रैय- पा.)  
 पाग ४, १, १२३<sup>१</sup>.  
 √लेखाय पा ३, १, २७.  
 लेखा-संधि- -धिषु गोश्रु २, ३,  
 ६<sup>१</sup>.  
 लेखा-समर<sup>१</sup>- -रम् आपश्रु ९,  
 १; हिश्रु ३, २, १.  
 √लेख्य पा ३, १, २७.  
 २लेख<sup>१</sup>- पा ६, ३, ५०.  
 लेख-ग्रहण- -णात् पावा ६, ३,  
 ४९.  
 लेखक- -कः विध ७, १३; -काः  
 अप ६३, ४, २; -केन विध ७, ९.  
 लेखन<sup>१</sup>- -नम् कौसू १३७, १२;  
 अप ५१, २, ३; -ने अप ५१,  
 २, ४; ५, ५.  
 लेखन-वेला- -लायाम् माश्रौ  
 ४, १, २०.

लेखयित्वा शाश्रौ १७, १०, ४.  
 लेख्य- -ख्य विध ९८, ६३<sup>०</sup>;  
 -ख्यम्<sup>१</sup> विध ७, १; १२; १३;  
 -ख्येन आश्रिगृ ३, १०, २: ३<sup>१</sup>.  
 लेख्य-प्रत्यय- -यः वाध १६,  
 १४.  
 लेख्या(ख्य-अ)भाव- -ने विध  
 ५, १८७.  
 लेख्या(ख्य-अ)संनिधान- -ने  
 विध ६, २६.  
 लिङ्ग- पाठ १, ३६; पाग<sup>१</sup> ४, १, १८;  
 ९९; १०५.  
 लैगवायन- पा ४, १, ९९.  
 लैगव्य- पा ४, १, १०५.  
 लैगव्याय(न>)नी- पा ४, १,  
 १८.  
 √लिङ्ग<sup>१</sup> गाधा. भ्वा. पर. गतौ; चुरा.  
 उभ. चित्रीकरणे.  
 लिङ्ग(वप्रा.)<sup>१</sup>- पाग २, ४, ३१;  
 -ङ्गम् निस् ९, ७: ५;  
 २२; कौसू; अप ३६, २६,  
 १<sup>१</sup>; वौध २, १, १४<sup>१</sup>; वैध  
 २, ९: ५<sup>१</sup>; गौध २३, ११<sup>१</sup>;  
 -ङ्गस्य कौसू ६३, १३; अप ७०<sup>३</sup>,  
 १०, १<sup>१</sup>; ७२, १७, १०<sup>१</sup>; पावा  
 १, २, ६८; मौसू ७, ४;  
 ११<sup>१</sup> × ×; -ङ्गात् काश्रौ १,  
 ८ ३६; १२, ६, ३३;  
 वृदे; -ङ्गानाम् काश्रौ २२, ३,  
 १९; -ङ्गानि आश्रौ ५, १, ७;  
 अप; -ङ्गे<sup>१</sup> वाध ६, १८; शंघ

a) ०र्थे प्रविष्टे > ०र्थप्रविष्टः इति जीसं. । b) = स्मृतिकार- । धा. अर्थः ? । c) लिखिता इति BI. ।  
 d) पुं. घञन्तम् । स्त्री. = रेखा- । e) तु. पागम. । f) पाप्ते. पृ २०७६ h द्र. । g) रेखाम् इति आन. ।  
 h) वस. । i) व्यप. । उप. = १भू- । j) भ्रू- इति पागम. । k) लेखा-भ्र- इति [पक्षे]  
 भाण्डा. । l) उप. = संभेद- । m) कर्तरि कृत् । n) भावे करणे च प्र. । o) = विष्णु- ।  
 p) = व्यवस्था-पत्र- । q) = लेखन-साधन- । r) व्यप. । s) प्रायेण = विह- । विशेषः टि. द्र. ।  
 व्यु. ? < √लिङ्ग इति प्रायोवादः, < √लग् इति MW. ? । t) = शिव-लिङ्ग- । u) = मृचेन्द्रिय- ।  
 v) लिङ्ग-हेतुत्वात् इति जीसं. ।

५३; विघ ६०, २५; -ङ्गेन शांश्रौ  
१, १७, ४; हिश्रौ; पावा १, १, १;  
-ङ्गेः आश्रौ ५, ४, ३; ६, २, ११;  
आपश्रौ.  
?लिङ्गक- -काः अप ४८, ११६.  
लिङ्ग-कर्मन्- -र्म मीत् ११, ४, ३३.  
लिङ्ग-क्लृप्त- -प्ते शांश्रौ १४, २२, ५.  
लिङ्ग-क्रम-समाख्यान<sup>a</sup>- -न्वात् मीत्  
३, २, १९.  
लिङ्ग-ग्रहण- -णम् लाश्रौ ९, ६, २२.  
लिङ्ग-ज्ञ- -ज्ञाः या १, १७.  
लिङ्ग-तस(ः) आपध २, २९, ६;  
हिघ २, ६, १९; वृदे १, २०; ३,  
३९<sup>c</sup>; ६, ६९.  
लिङ्ग-दर्शन- -नम् मीत् ३, ७,  
४३××; -न्वात् मीत् १, १,  
२३××; ७, ३, ८<sup>b</sup>.  
लिङ्गदर्शना(न-अ)व्यतिरेक-  
-कात् मीत् १, २, २८.  
लिङ्ग-पुंङ्गावप्रतिषेधा(घ-अ)र्थे-  
-र्थम् पावा ४, ३, १२७.  
लिङ्ग-प्रतिषेध- -घः पावा १, ३,  
६२.  
लिङ्ग-प्राधन- -नम् पावा ५, ४, ३०.  
लिङ्ग-भाज्- -भाजा वृदे ३, १११.  
लिङ्ग-भाव- -वात् मीत् ३, २, ३९;  
८, १, ३०.  
लिङ्ग-भेद- -दात् मीत् २, ३, २.  
लिङ्ग-वचन<sup>a</sup>- -नम् पावा ४, १, ९२;  
-नानि पावा १, २, ७२.  
लिङ्गवचन-भाव- -न्वात् पावा ४,  
१, ३.  
लिङ्गवचन-सिद्धि- -द्विः पावा  
१, २, ६४; ५, २, ९४.  
लिङ्गवचना(न-अ)नुपपत्ति- -त्तिः  
पावा २, ३, ५२; ४, २, ३; ५, ३,

६७<sup>c</sup>; ७४.  
लिङ्गवचना(न-अ)भाव- -न्वात्  
पावा ५, ३, ६६.  
लिङ्ग-वत्- -वता वैताश्रौ १, ३.  
लिङ्गवती- -त्यः नाश्रौ ५, १, ५,  
२७.  
लिङ्ग-वाक्य- -न्यात् वृदे ५, ९३.  
लिङ्गवाक्य-विकार-तस्(ः) वृदे  
७, १०८.  
लिङ्ग-विरोध- -धात् मीत् ९, १,  
३२.  
लिङ्ग-विवेचक- -काः याशि २, ७.  
लिङ्ग-विशिष्ट- -ष्टस्य पावा ४, १,  
१; -ष्टात् पावा ५, २, ५२.  
लिङ्गविशिष्ट-ग्रहण- -णात् पावा  
६, १, ८४; -णे पावा ८, ४, ११.  
लिङ्गविशिष्ट-प्रतिषेधा(घ-अ)  
र्थे- -र्थम् पावा ७, १, १.  
लिङ्गविशिष्टा(ष्ट-अ)ग्रहण- -णात्  
पावा ७, १, १.  
लिङ्ग-विशेष- -षेण मीत् १०, ३,  
६२; ६६.  
लिङ्गविशेष-निर्देश- -शाव मीत्  
३, २, २७; ६, १, ६; ९, १, ४४.  
लिङ्ग-संयोग- -न्वात् हिश्रौ ९, ८,  
४६.  
लिङ्ग-संख्यो(ख्या-उ)पचारा(र-  
अ)नुपपत्ति- -त्तिः पावा २,  
२, २४.  
लिङ्ग-संनियोग- -नेन पावा ४, १,  
३६.  
लिङ्ग-समवाय- -यात् मीत् १, ४,  
२८.  
लिङ्ग-समाख्या- -ख्याभ्याम् मीत्  
३, २, २४<sup>c</sup>.  
लिङ्ग-साधारण्य- -णयात् मीत् ८,

१, २७.  
लिङ्ग-सामर्थ्य- -र्थ्यात् मीत् १०,  
६, ७४.  
लिङ्ग-सिद्धय(दि-अ)र्थे- -र्थम् पावा  
५, ३, ९८.  
लिङ्गा(ङ्ग-अ)तिदेश- -शात् पावा  
१, ३, ६२.  
लिङ्गा(ङ्ग-अ)धिकार- -रे पावा ४,  
१, २५.  
लिङ्गा(ङ्ग-अ)नुपपत्ति- -त्तिः पावा  
४, १, ३.  
लिङ्गा(ङ्ग-अ)न्यत्व- -त्वम् पावा ४,  
१, ९२.  
लिङ्गा(ङ्ग-अ)न्वि(त>)ता- -ताम्  
विघ ५, १७२.  
लिङ्गा(ङ्ग-अ)भाव- -न्वात् पावा १,  
२, ४७; २, ४, ८२; ७, १, ३३;  
मीत् १, ३, १८.  
लिङ्गा(ङ्ग-अ)यतन-चित्र- -त्राणाम्  
अप ७६, १, ४.  
लिङ्गा(ङ्ग-अ)यतन-चैत्य- -त्येषु  
अप ७०<sup>c</sup>, ९, २.  
लिङ्गिन्- -ङ्गिनः अप ६८, २, ३५;  
-ङ्गिनाम् विघ ९३, १३<sup>d</sup>.  
लिङ्गि-षेप- -षेण विघ ९३, १३.  
लिङ्ग्यु(ङ्गि-उ)वताप- -पः कौम्  
२५, २.  
लिङ्गे(ङ्ग-ई)प्सु- -प्सुः शांश्रौ १४,  
५१, ८.  
लिङ्गो(ङ्ग-उ)क, क्ता- -कः शुभ्र ३,  
४; -कम् शुभ्र १, ४६××;  
-क्ता शुभ्र १, १४१××; नाश्रु;  
-क्ताः शुभ्र १, २७१; २९६; नाश्रु  
१, ४२७; ६४२; २, ३४५××;  
-क्तानि शुभ्र १, १२५××;  
-के शुभ्र १, ४१××.

a) समाहारे द्वस. । b) लिङ्गान् इति जीसं. । c) क्त्यानाभ्याम् इति जीसं. । d) लिङ्गेन इति जीसं. ।

१ लिङ्गोक्त-देवता- -ता ऋअ  
२, ६, ७५; शुअ १, १७०; -ताः  
ऋअ २, ६, ४८; ७५; १०, ५९;  
शुअ ३, १२४.

लिङ्गोक्त-देवत्व, त्या- -त्यम्  
अअ ७, २२; ३७; -त्ये ऋअ  
२, १, १३६.

२ लिङ्गोक्त-देवत, ता<sup>a</sup>- -तः ऋअ  
२, १, ९४; ६, ४७; शुअ १,  
३०५; साअ १, ९६; ५९०;  
-तम् शुअ १, २७२××; -ता  
ऋअ २, २, ३२××; शुअ; -ताः  
ऋअ २, ६, ७५; शुअ १, १७३;  
२, ४६०; -तानि शुअ १,  
४७०××; -ताम् शुअ ४, ३०;  
५०; -ते शुअ २, ४२९; -तौ  
ऋअ २, १, ११२.

लिङ्गोक्त-देवत<sup>a</sup>- -तः शुअ २,  
४६४<sup>३</sup>; -तम् ऋअ २, ४, १३;  
१०, १८४; वृदे; -ते वृदे ४,  
१२९.

लिङ्गोक्त-देवत-पा(व>)दा<sup>b</sup>-  
-दा ऋअ २, १, ३५.

लिङ्गोक्त-बहुदेवता- > ष्व-  
(त्य>)त्या- -त्या शुअ १,  
५०६; २, १०६.

लिङ्गो(ङ-उ)द्धार- -रः गौघ १२, २.

लिङ्गो(ङ-उ)पदेश- -शः मीसू १,  
२, ५१.

लिङ्गो(ङ-उ)पपत्ति- -त्तिः द्राश्रौ  
२, १, ५.

लिह्- (> √ लिह्य पा.) पाग ३,  
१, २७.

? लिह्गुतौ<sup>c</sup> अप ४८, ४३.

√ लिप्, म्प<sup>d</sup> पाधा. तुदा. उभ.  
उपदेहे, लिम्पन्ति चैताश्रौ २०,  
६; कौसू ८०, २०; लिम्पेत्  
शाश्रौ ७, ८, १२.

लिप्यते अप ४२, १, ३; ऋवौघ  
२, ६, ३२; १०, ८; गौघ १९, २.  
लेपयेत् अप १, १०, ३; अशां  
२२, ४.

लिपि- पाउ ४, १२०; -प्याम्  
पावा ४, १, ४९.

लिपि-कर- पा ३, २, २१.

लिस- पाउ ५, ५५<sup>e</sup>; -सानाम्  
कप्र १, ८, १४.

लिस-वासित- पाग २, २, ३१.

लिम्प- पा ३, १, १३८.

लेप<sup>f</sup>- -पः वौश्रौ २३, ९ : २९;  
वाश्रौ १, २, ३, २३; वाघ ३, ४०;  
विघ २३, ३९; -पम् आपश्रौ  
६, १०, १०××; काश्रौसं; वौश्रौ  
३, ६ : १८; २१××; भाश्रौ  
६, १२, ७; ८××; माश्रौ १, १,  
२, २०; २९××; वाश्रौ १, २, ३,  
२५; ३, १, २९××; वैश्रौ २, ५ : १;  
२; ६××; हिश्रौ ३, ७, ६७;  
७१<sup>३</sup>××; -पयोः आपगृ ७, १३;

-पाः आपश्रौ १८, १६, ७; १४<sup>३</sup>;  
हिश्रौ १३, ५, ३५; ६, ३३; आपघ  
१, ५, २३; हिघ १, ४, ८२; -पात्  
आपश्रौ ३, २, ७; काठश्रौ १४<sup>३</sup>;  
भाश्रौ; आपघ २, २, १<sup>६</sup>; -पान्  
आश्रौ ८, १४, १४; आपश्रौ  
१८, ४, १५; ५, १; वाश्रौ;  
हिघ २, १, २३; -पेन् भाश्रौ  
१, २६, ३; माश्रौ १, ३,

२, १०; ५, ८; वाश्रौ; -पेषु  
आपश्रौ १५, ११, ७; वौश्रौ  
९, ११ : १६; भाश्रौ; -पौ  
आपश्रौ १९, २१, १९; हिश्रौ  
२२, ४, ७.

लेप-गन्ध- -न्धेन वैघ ३, ३, ३<sup>५</sup>.  
लेपगन्धा(न्ध-अ)पकर्षण-  
-णे वाघ ३, ४८; गौघ १,  
४८.

लेप-निमार्जन- > ष्व-शेषाव-  
नयनां(न-अं) शुनिधान-वर्जम्  
वैश्रौ १५, १४ : ९.

लेप-वत् मीसू ९, ४, ३७.

लेपन- > ष्व-स्तरणो(ण-उ)पस्त-  
रण- -णैः आगृ २, ३, ३.

लेपनो(न-उ)दक- -कम् वाघ  
११, २४.

लिप्सत्- प्रम्. √ लम् द्र.

लिवि<sup>१</sup>- > लिवि-कर- पा ३, २,  
२१.

लिबु(ज>)जा<sup>१</sup>- -जा अअ ६, ८;  
या ६, २८<sup>६</sup>; ११, ३४; अप्रा ३,  
४, १; दंवि २, २.

लिवि- पाउवृ ४, १२०.

√ लिश् पाधा. दिवा. आत्म. अल्पी-  
भावे; तुदा. पर. गतौ > लेश<sup>६</sup>-  
-शः तैप्रा १०, २३; -शेन ऋप्रा  
१४, १७.  
लेश-वृत्ति- -त्तिः शौच २, २४.

लिष्व- पाउभो २, ३, १२८.

√ लिह्<sup>१</sup> पाधा. अदा. उभ. आस्वादने,  
लिहन्ति वाधूश्रौ ४, ८९ : २८;  
३०; या १०, ३९; लिह्यात्  
वाधूश्रौ ४, ८९ : २८.

a) वस. । b) कस. > वस. । c) णुसौ इति संस्कर्तुः टि. । d) पा ३, १, ५३; ५४;

७, १, ५९ परामृष्टः द्र. । e) < √ ली । f) = [ पात्रादि-लम्न-] घृतादिव्यशेष- । घृत् प्र. । g) पाठः ?

पान् इति शोधः (तु. हिघ २, १, २३) । h) लेपगन्धेन रुद्धा > तल्लेपगन्धमनदशङ्का इति ०. । i) = लिपि- ।

j) वैप १ द्र. । k) = लुप्तवह्चारण- । l) पा ७, ३, ७३ परामृष्टः द्र. ।

वैप४-तृ-८२

ली(ह्)डा- > लीडा(डा-अ)

तिलीड-विद्युत्- -द्युत् याशि २, ४९.

लेलिह<sup>०</sup> - -हाः तु ११, ५.

लेलिहान- -नः अप २४, ३, ३.

लेह- पा ३, १, १४१.

√ली<sup>०</sup> पाधा. दिवा. आत्म., वया. पर. श्लेषणे; चुरा. उभ. द्रवीकरणे, लीयते या ६, २८; कौशि ८१; लीयन्ते विध २०, २७.

लय- -यम् अप २, ५, ४.

लय-समत्व- -त्वम् याशि २, ८३.

लाय<sup>०</sup> - -यम् वैयाथी ३३, १९१.

√लु, लृ<sup>०</sup> पाधा. क्त्वा. उभ. छेदने, लुनोति आपथी १, ३, १५; ४, २; वौथी; लुनुयात् वौथी २१, ४: ४.

लुनाति माथी १, १, १, ३६; कौत् ६१, ३९.

लवक- पा, पावा ३, १, १४९.

धलवग- पाग ३, १, १३४.

लवन- -नम् आमिष्ट २, ५, १२: १३; -ने वौथी २०, २: ४२; हिथी १, १, ४०; पा ६, १, १४०.

लवन-मन्त्र- -न्त्रः हिथी ३, ८, ५३.

लवना(न-अ)र्थ- -र्थे या २, २.

लवित्र- पा ३, २, १८४.

लु<sup>०</sup>, लृ<sup>०</sup> च्वा आपथी १, ४, ८; हिथी १, २, ४०; वाथी १, २, १, १८; कौत् १, २५.

ल्ल- पा ८, २, ४४; पाग ५, ४, २९;

-नम् वौथी २०, ३: २२; २५;

कागुड ४१: ५; -नस्य आपथी

७, ६, १; -नाः गीत् १, ५, १७;

-नान् कौत् ३५, ७; -ने हिथी

३, ८, ५३; अप २३, ११, ४.

ल्ल-क- पा ५, ४, २९.

ल्ल-यव- पाग, पावाग २, १,

१७.

ल्लवत्- पा ८, २, ४४.

१ल्लनि- पावा ८, २, ४४.

ल्लयमान-> न-यव- पाग, पावाग २, १, १७.

लुच्<sup>०</sup> - लृक् वाष २१, ११.

√लुच्<sup>०</sup> पाधा. भ्वा. पर. अपनयने.

√लुच्<sup>०</sup> पाधा. चुरा. पर. हिंसावला-दाननिकेतनेषु, उभ. भाषायाम् च.

√लुद् (वधा.) पाधा. भ्वा. पर. विलो-डने विलोडने<sup>६</sup>, आत्म. प्रतिघाते; तुदा. पर. संश्लेषणे; चुरा. उभ. भाषायाम्, लोडते निघ २, १४१<sup>१</sup>.

√लुद्<sup>१</sup> पाधा. भ्वा. पर. उपघाते, आत्म. प्रतिघाते; दिवा. पर. विलोडने; तुदा<sup>६</sup>. पर. संश्लेषणे, लोडते निघ २, १४१<sup>१</sup>.

√लुद्<sup>१</sup>

लुडित- -ते ऋत ५, २, ९.

√लुण्ट<sup>०</sup> पाधा. भ्वा. पर. स्तेये.

लुण्ट-क- पा ३, २, १५५.

√लुण्ट<sup>०</sup> पाधा. भ्वा. पर. स्तेये<sup>०</sup>, आत्मस्ये, प्रतिघाते गतौ च; चुरा. पर. स्तेये.

√लुण्ट<sup>०</sup>

लुत्वा √लु, लृ<sup>०</sup> द.

√लुन्थ<sup>०</sup> पाधा. भ्वा. पर. हिंसासंक्लेश-योः.

√लुप्<sup>०</sup>, म्प<sup>०</sup> पाधा. दिवा. पर. विमोहने; तुदा. उभ. छेदने, लुम्पन्ति वाधुथी ४, ७४: ८; ऋप्रा १४, ४०; ४३; ४८; ५०; माशि ७, ३; नाशि २, १, ३; लुम्पेत् निसू ५, ११: २३; लुम्पेयुः द्राथी ९, ३, २०; लाथी ३, ७, ७.

लुप्यते अथी १, ५, १२; ४, ८, ८; शाथी १, २, १०; ३, २०, १३; आपथी; लुप्यते तैप्रा १०, १९; २२; लुप्यन्ते क्षुत् १, २: १६××; निसू; लुप्येत आपथी १, १०, २१; १४, ३२, ६; वौथी; लुप्येत् शाथी १३, १, ८.

लोपयति माथी १, ६, १, २२; लोपयन्ते माग २, १, १३<sup>१०</sup>; लोपयेत् वौथी २७, ६: २५; २८, १३: २३; २४; हिथी १५, ३, २६.

लुप्त, सा- -सः लाथी १०, ५, ५; -सम् लाथी ७, ११, ६; ऋप्रा ३, ९, १२; ऋप्रा १, १, २८; -सा द्राथी १, ४, २; लाथी १, ३, २१; -सानि वौथी २८, १३: २०; -से तैप्रा १५, १; १७, ४; शैशि २३०; याशि २, ७७; पावा १, १, १९.

लुप्त-करण<sup>०</sup> - -गानि अप्रा १, १, २४.

a) सनाहारि दस. । मध्यमपदे छान्द्रसो हसः । b) = कर्त्त- । कर्त्तरि प्र. । c) या ३, ५ पा १, ३, ७०; ६, १, ५१; ७, ३, ३९; ८० पावा ६, १, ५० परानुष्टः द. । d) = श्लाय- (वृ. वैष १) । e) या ३, ५ पा ७, ३, ८० परानुष्टः द. । f) आपथी. हिथी. पाठः । g) अर्थः ? = जलौकन्- इति Boh. । h) पा १, २, २४ परानुष्टः द. । i) पा १, ३, ११; ३, १, ५५ परानुष्टः द. । j) √लुद्, √लुल् इति BFG. । k) वृ. BFG. । l) धा. गतौ इतिः । m) √लुण्ट इत्यपि [पक्षे] भास्वटा. प्रच. । n) पा ३, १, २४; ७, १, ५९ पावा ७, ४, ३ परानुष्टः द. । o) पाभि. वैष १, २६०-२: १ द. । p) वस. ।

लुस-ज(प>)पा<sup>३</sup>-पा आश्री  
२,१९,३.

लुस-धर्म<sup>३</sup>-र्मः वीश्री २९,८:  
१३.

लुस-नकार<sup>३</sup>-त्व- -त्वात् पावा  
७,१,५९.

लुस-नामकरण<sup>३</sup>-णः या ६,  
२२.

लुस-पर<sup>३</sup>-राणि अप्रा १, १,  
१५.

लुस-प्रत्यय<sup>३</sup>-ये अप्रा ३,४,१.

लुस-भाग<sup>३</sup>-गम् निसू ३, ६:  
३२.

लुस-चत्-चत् ऋप्रा १०,३.

लुस-क्षेप-पेण अप्रा २,४, ५.

लुस-श्मश्रु-लोम-नख<sup>३</sup>-खाय  
आमिण् ३,११,२: २.

लुसा(स-आ)व्यात<sup>३</sup>-तेषु पावा  
२,१,१.

लुसा(स-अ)न्त<sup>३</sup>-न्तम् ऋप्रा  
१०,३.

लुसा(स-अ)र्थ-र्थम् काण्  
५१,३.

लुसो(स-उ)प(मा>)म<sup>३</sup>-  
मानि या ३,१८.

लुप्त्वा द्राश्री १५,४,७; लाश्री ५,  
१२,१४.

१ लोप-पः काश्री १९, ७, ६;

आपश्री; पा १,१,६०; ३,९××;

पावा १, १, ६५<sup>३</sup>, ३, ९××;

-पम् शुप्रा ३,१३६; ४,५; ३८;

९९; -पस्य पावा ५,१,२८; ६,

४, ५३; ७, ४, ६०; ८, २, ३;

-पात् निसू २, ९: २१; ६, ५:

२६; ७, १३: ९; १८; ८,

१०: २९; पावा १, १, २६;

२,४, ८५; ८, ३, २३; -वे

शौच १, ६७; पा ६,१, १३४;  
८,१, ४५; पावा १, १, ६२; ३,  
९××.

लोप<sup>०</sup> पावा १, १, ५७; ४, २;

६,१,१८६.

०लोप<sup>०</sup> पावा ६, १, १२××.

०लोप-पः पा ६,१,१३२××;

-पस्य पावा १,१,४; -वे पावा

१,२,४५××.

०लोप-धातु-प्रातिपदिक-प्रत्य-

य-समासान्तोदात्तो (त-उ)दात्त-

निवृत्ति-स्वर-राः पावा ६, १,

९०.

०लोप-पुंवद्भाव-वौ पावा

८,१,९.

०लोप-पुंवद्भावा (व-अ)न्तो

दात्तत्व-त्वानि पावा ८, १,

११.

लोप-निमित्त<sup>३</sup>-त्व-त्वात् पावा

४,१,७८.

लोप-प्रतिषेधा(ध-अ)र्थ-र्थम्

पावा ७,४,६१.

लोप-प्रसङ्ग-ऋः पावा ७, ४,

९३.

लोप-त्रलीयस्-त्व-त्वात् पावा

७,२,३.

लोप-रेफो(फ-रु)प्स-भाव-

-वम् ऋप्रा १५,१२; -वे ऋप्रा

४,८०.

लोप-वचन-नम् पावा ५, ३,

८३; ७,४,६; ८,३,२०.

०लोप-वचन-नम् पावा ४,

१,७८; ६,१,१; ७०; ४, १७४;

८, १, ६७; -नात् पावा ५, २,

१२<sup>३</sup>; ७,१,३३.

०लोपवचना(न-आ)नर्थक्य-

क्यम् पावा ४, ३,२२; ७,

१,३३.

लोप-विज्ञान-नात् पावा ७,

१,३३.

०लोप-संयोगादिलोप-कुत्व-

दीर्घत्व-त्वानि पावा ८, २,

२२.

लोप-संज्ञा-ज्ञायाम् पावा १,

१,६०.

लोपसंज्ञिन्->ज्ञि-त्व-

-त्वात् पा १,१,६०; ६२.

लोप-संदेह-हे अप्रा २, २,

२.

लोप-स्थान-नम् लाश्री १०,

५,७.

०लोप-स्वर-वर्जम् पावा १, १,

५८.

लोपा(प-आ)गम-विकार-राः

तैप्रा २४,५; याशि २,८.

लोपागमविकारा (र-आ)दि-

-दि शैशि २४३; ३०४.

लोपा(प-अ)र्थ-र्थम् पावा ३,

१, ३; ६, ४, १७१; ७, १,

२७.

०लोपा(प-अ)र्थ-र्थम् पावा ६,

४,१३५.

लोपिन्-पिनः पावा २, ४,

६२; ४,१,८९.

०लोपि-प्रतिषेधा (ध-आ)न-

र्थक्य-क्यम् पावा ७,४,२.

लोप्त्र-पाठभौ २,३,८१.

लोप्त्र-हस्त-स्तः शंघ

३२८.

लुब्ध-√लुम् द.

√लुब्धः निसू ९,६: ७; १०: २५.

√लुम् (वधा)<sup>०</sup> पाधा. दिवा. पर.

गार्थे; तुदा. पर. विमोहने,

लुलोभ कौस् ४२,१७<sup>३</sup>.

लोभयति जैश्री ८ : ६<sup>a</sup>; लोभ-  
यन्ते<sup>a</sup> माश्री २, २, २, ५<sup>b</sup>; काश्र  
४५, ८; लोभयन्ति<sup>a</sup> माश्री १,  
२, ५, २२<sup>b</sup>; लोभयेत् आपश्री ९,  
१०, १६<sup>a</sup>.  
लुब्ध- -ब्धः विध ९३, ८; -ब्धम्  
या ४, १४<sup>c</sup>; -ब्धाः माशि १६,  
४; ५.  
लुब्ध-योग- -गो पा ५, ४,  
१२६.  
लोभ- -भः आपध १, २३, ५; विध  
३३, ६; हिध १, ६, १३.  
लोभ-तस् (ः) विध ६, ४०.  
लोभ-नामन्- -म या २, ५.  
लोभ-मोहित- -ताः वौध १,  
११, २१; काध २८१ : ५.  
लोभ-शून्य-त्व- -त्वम् विध २,  
१७<sup>d</sup>.  
लोभन<sup>e</sup>- -नानि माश्री १, २, ५, २३;  
२, २, २, ७.  
लोभयत्- -यन्तः काश्र ४५, ८<sup>f</sup>.  
√लुम् पाधा. भ्वा. पर. अदर्शने.  
√लुल् > लोल<sup>h</sup>- > लौल्य-  
-ल्यत् वृदे ८, ३१.  
लोल-जि(हा>)ह<sup>i</sup>- -हः विध  
४५, १६.  
लुश<sup>l</sup>- -शः ऋश्र २, १०, ३५; वृदे  
३, ५५; शुश्र २, ३२८; ३, १७६;  
२१२; -शात् ऋश्र २, ६२;  
-शे वृदे २, १२९.  
लुपम- पाउ ३, १२४.

√लू √लु द्र.  
लूता- पाउमो २, २, १३३.  
लूनि- √लु, लू वृ.  
लूनि- पाउवृ ४, १०५.  
√लूप पाधा. भ्वा. पर. भूपायाम्;  
चुरा. पर. हिंसायाम्.  
लूप- (> लौपायणि-) अर्क-लूप-  
टि. द्र.  
लूक<sup>k</sup>- -कः आपश्री ५, २९, ११;  
वौश्री ३, ३ : १६; भाश्री ५,  
२१, ११; वैश्री १, २० : १३;  
हिश्री ३, ६, २७.  
लूख- प्रश्र. √लिख् द्र.  
लूख<sup>l</sup>- (> लैख- पा.) पाग ४, १,  
११२.  
लूखक- प्रश्र. √लिख् द्र.  
लूट- (> √लेट्य पा.) पाग ३, १, २७.  
√लेप् पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ.  
लेप-, लेपन- प्रश्र. √लिप् द्र.  
लेला- पाग ३, १, २७; > √लेलाय<sup>m</sup>  
पा ३, १, २७; लेलायति आपश्री  
२, १९, ११; ६, १०, ३; हिश्री ३,  
७, ६४; लेलायन्ति वाधूश्री ४,  
११७ : ३.  
लेलायत्- -यत् आपश्री ६, ९, २१.  
लेलि- -लिम् शाश्री १६२, १८, १७<sup>n</sup>.  
लेलिह-, हान- √लिह् द्र.  
लेश- √लिश् द्र.  
लेह- √लिह् द्र.  
लैगवायन-, लैगव्य- प्रश्र. लिगु- द्र.  
√लैण<sup>n</sup> पाधा. भ्वा. पर. गतिप्रेरण-  
लेपणेयु.

√लोक पाधा. भ्वा. आत्म. दर्शने;  
चुरा. उभ. भाषायाम्.  
श्लोक(वप्रा.)<sup>k10</sup>- -कः शाश्री ४, १४,  
३६<sup>p</sup>; १५, १७, १<sup>q</sup>; १६, २१,  
१३<sup>p</sup>; १५<sup>p</sup>; २२, १३<sup>p</sup>; काश्री;  
आपश्री ७, ९, १०<sup>r</sup>; १६, २३,  
१०<sup>r</sup>; वौश्री ४, ४ : १३<sup>r</sup>; ६,  
२७ : २<sup>r</sup>; १६, ११ : २<sup>p</sup>;  
भाश्री ७, ७, १३<sup>r</sup>; ऋश्री १०,  
८ : ४<sup>r</sup>; १४, १० : १०<sup>r</sup>; १८,  
१७ : २८; ऋश्री ४, २, ४१<sup>r</sup>;  
११, ७, ३१<sup>r</sup>; कौसू १२५,  
२<sup>p</sup>; शुश्र २, १५५<sup>s</sup>; १५६<sup>s</sup>;  
-कम् ऋश्री ३, ७, ११<sup>t</sup>;  
शाश्री २, ६, ७<sup>r</sup>; काश्री;  
आपमं १, ६, ४<sup>u</sup>; आमिष्ट  
३, ८, २ : १९<sup>v</sup>; वौषि  
१५ : ३७<sup>w</sup>; माश्र १,  
१३, ६<sup>u</sup>; या १२, ८<sup>u</sup>;  
२३; ३७<sup>x</sup>; -कयोः ऋश्री  
४, १०, १; ५, ८, ४; १०,  
५, ५; ऋश्री; -कस्य आश्री  
८, १३, १४; ऋश्री ५,  
१८, २; ६, ९, ४; वौश्री; -काः  
ऋश्री २, १४, १२; १०, ९,  
५; ऋश्री १६, २१, २; २१;  
ऋश्री ४, ७, २<sup>x</sup>; वौश्री;  
भाश्री ४, १०, १; माश्री १,  
८, २, ७<sup>r</sup>; वाश्री १, ६,  
३, १<sup>r</sup>; हिश्री ६, २, १७<sup>r</sup>;  
आमिष्ट ३, ६, १ : १०<sup>r</sup>; वौषि  
१, ८ : ९<sup>r</sup>; हिध २, १,

a) पा. नाशे श्रुतिः । b) ऋप्र. ऋन्ते <> ऋन्ति श्रुति पाभे । c) नाप. (व्याध- ) । d) अलोभः इति जीसं. । e) = [प्रकरणतः] पाद-पांशु- (तु. पूर्व सूत्रम्) । f) पाभे. वैप १, २६०२ i द्र. । g) पृ २१०६ j द्र. । h) = नद्यत्- । धा. गतौ श्रुतिः । i) वत्त. । j) व्यप. । k) वैप १ द्र. । l) धा. दीप्तौ श्रुतिः । m) पाभे. वैप १, २५७१ ० द्र. । n) तु. BFG. । o) विशेषः टि. द्र. । p) = देव-लोक- । q) = श्रुतिगी-लोक- । r) परस्परं पाभे. । s) = [उपचारात्] देवता- । t) पाभे. पृ ८४१ h द्र. । u) पाभे. वैप १ लोकम् ऋ १०, ८५, २० टि. द्र. । v) पाभे. वैप १ लोकम् ऋ १०, १८, १३ टि. द्र. ।

१२<sup>a</sup>; शुभ ४, १८<sup>b</sup>; अत्र १०, १०<sup>c</sup>; या ४, १९<sup>d</sup>; -काःS-काः माथ्रौ ६, १, ६, ११<sup>e</sup>; -कान् आथ्रौ २, ६, २<sup>f</sup>; १२, ९, १८; शांथ्रौ ४, ४, २<sup>g</sup>; १६, २२, १०; ऋआपथ्रौ, १, ८, ७<sup>h</sup>; ६, १३, ८; २२, १६, ९; काठथ्रौ ५<sup>i</sup>; ७<sup>j</sup>; वौथ्रौ १२, १४; १३; १८, ४८; १७<sup>k</sup>; माथ्रौ १, ८, ५<sup>l</sup>; माथ्रौ १, १, २, ८<sup>m</sup>; वायुथ्रौ ४, ३७: ३०<sup>n</sup>; वाथ्रौ १, २, ३, १<sup>o</sup>; ऋहिथ्रौ २, ७, १७<sup>p</sup>; जैगृ २, २: ४<sup>q</sup>; -कान् शांथ्रौ १६, २१, २१; आपथ्रौ ४, ८, ४<sup>r</sup>; ५, ९, ११<sup>s</sup>; ६, १८, ३; ७, १, १; १६, २५, २<sup>t</sup>; ऋ१, ११, ९; १०; २२, ९, १९; १२, १०<sup>u</sup>; ऋवौथ्रौ २, १०: ८; १४, २१: २३; १६, ११: ३; २७: ३; १९, १०: ४९; २४, ११: १८; माथ्रौ ४, १२, ३<sup>v</sup>; माथ्रौ १, ५, २, १५<sup>w</sup>; २, ५, ५, २२<sup>x</sup>; ६, १, ७, ३१; वायुथ्रौ; वैध ३, १५, १३; हिघ २, २, ३५<sup>y</sup>; ४, ४०; ५, १९६; वृदे २, ३८; ६२; ६, १२१; ७, १२७; शुभ ११, १०; या २, २२; शुभ ३, १४७<sup>z</sup>; तैप्रा ६, १४<sup>aa</sup>; -कानाम् शांथ्रौ १६, २१, १६; ऋवौथ्रौ १३, २८: १२; ४१: १३; जैथ्रौ; -काभ्याम् निसू ८, ६: १७;

-काय शांथ्रौ १३, १४, ६; काथ्रौ २५, ७, ४०<sup>ab</sup>; आपथ्रौ; -के आथ्रौ १, १३, ४<sup>c</sup>; २, १७, १०<sup>d</sup>; ११, ३, ७; काथ्रौ २०, ६, १५<sup>e</sup>; शांथ्रौ; आपथ्रौ १, १०, १२<sup>f</sup>; २२, ८, २<sup>g</sup>; ९<sup>h</sup>; १३<sup>i</sup>; ९, १<sup>j</sup>; वौथ्रौ ६, २५: १३<sup>m</sup>; १४<sup>n</sup>; माथ्रौ १, १०, ७<sup>o</sup>; ११, १<sup>p</sup>; ५, २०, ९<sup>q</sup>; माथ्रौ २, ५, ५, २२<sup>r</sup>; ५, १, २, ८<sup>s</sup>; वाथ्रौ ३, ४, ४, १५<sup>t</sup>; हिथ्रौ २, ७, ६२<sup>u</sup>; ३, १, ४<sup>v</sup>; ९, ८, ३२<sup>w</sup>; १७, ३, २६<sup>x</sup>; ३१<sup>y</sup>; ३२<sup>z</sup>; ३४<sup>aa</sup>; ध्रुसू २, १०: १८<sup>ab</sup>; निसू ३, ३: १२<sup>c</sup>; ५, ४: ४; ८<sup>d</sup>, १३: ३७; ४१; ९, १२: १७<sup>e</sup>; १०, २: १८<sup>f</sup>; ऋशांथ्रौ ५, ९, ४<sup>g</sup>; वौगृ ४, ४, ९<sup>h</sup>; भाग १, १२: १३<sup>i</sup>; गौपि २, ६, २१<sup>j</sup>; जैगृ २, २: २७<sup>k</sup>; वाघ १, ३<sup>l</sup>; ६, ६<sup>m</sup>; २८, ७<sup>n</sup>; शंघ २९०<sup>o</sup>; आपघ २, १, १२<sup>p</sup>; गौघ ८, १<sup>q</sup>; पावा १, १, १; २३; ४४; २, ४५; ३, ११; ६, १, १; ८२; ८३; -ऋकेन वैताथ्रौ ३६, ३०; कौगृ; -केभ्यः ऋआपथ्रौ २१, ११, ५; ६; २३, ३, १०; वौथ्रौ; वैताथ्रौ ३६, २०<sup>r</sup>; -केषु आथ्रौ १२, ९, १६; शांथ्रौ; या १३, ९; -कौ आथ्रौ ११, २, ११; ४, ३; आपथ्रौ. लौकिक, का<sup>p</sup>- पा ५, १, ४४; -कः काथ्रौ १, ३, २८; आपथ्रौ

२४, ४, २२; वौथ्रौ २, ७: २२; वैथ्रौ २०, १५: ७; ८; कप्र २, ९, १८; मीसू ७, ४, २; -कम् काथ्रौ ४, ३, ७; ५, ११, ६; आपथ्रौ ५, १३, ८x; वैथ्रौ; शांथ्रौ ५, १, ७; पावा १, ४, ५६; -काः वौथ्रौ २९, ९: १५; हिथ्रौ; नाशि १, २, १४; -कानाम् हिथ्रौ ५, २, ३३; आपघ; -कानि वैथ्रौ ११, १०: २; हिथ्रौ ३, १, २; -के शांथ्रौ २, १७, ९<sup>r</sup>; काथ्रौ १, १, १४; आपथ्रौ; -केन आपथ्रौ ८, ५, ३२; हिथ्रौ ४, २, ४४; ४५; -केषु हिथ्रौ १, १, १६; या १, १६; मीसू ११, ३, ३२.

लौकिकी- -कीम् वैथ्रौ

१२, ११: २; हिथ्रौ १०, २, ३७; -क्या आपघ २०, २; आपघ १, १३, ७; हिघ १, ४, २१.

लौकिक-त्व- -त्वात् वौथ्रौ २, ७: २१.

लौकिक-प्रयोग- -नो वौथ्रौ २९, ८: १७.

लौकिक-विधि- -धिम् वौथ्रौ २९, ७: १.

लौकिक-वैदिक- -केषु पावा १, १, १; ५६; ६, १, ८३; पापवा १; पापवा २, ३.

लौकिक-संभार-भाण्ड-

-ण्डानि वैगृ ५, ४: ३८.

लौकिका(क-अ)मि- -मिना कागृ ४२: १८; वैगृ ७, २: ४:

a) सपा. आपघ २, १, १२ लोके इति पामे. । b) = [उपचारात्] देवता- । c) पाठः ? कान् इति शोधः (तु. शौ १०, ७, १०) । d) = [रिक्त-] स्थान- । e) पामे. वैप १, २५४९ ० द. । f) = [प्रकरणतः] लोक-व्यवहार- । g) = पृथिवी-लोक- । h) = स्वर्ग-लोक- । i) पामे. वैप १, १८९७ ० द. । j) परस्परं पामे. । k) पामे. वैप १ लोके मा १९, ४६ टि. द. । l) = स्थान- । m) = लोट- (तु. शब्दसूची) । n) सपा. शौ ७, १०४, १ विभे. । o) पामे. वैप १ लोके शौ ६, ११७, ३ टि. द. । p) विप., नाप. ( [वैदिक-कर्मवर्जित-] वृथारिन्- [यद. ] ) ।

-श्री वैश्व ३, १८ : ३; ६, १ : २१xx; वैश्व ३, ८, ४.  
 लौकिकामि-विलम्बन-  
 नन् वैश्व ३, २१ : १३.  
 : लौकिक- -कम् वीश्री १७, १८ : ११; -क्यानाम् वृद्धे १, ४; -श्री वीश्री २७, ११ : १६; १६.  
 लोककान- -मः कौश्व ५२, २१; -नन्त्र छन्द ३, ४ : १७.  
 लोकिक- -हृद् काश्री ३, ३, ११; आश्री ५, १६, १; वीश्री; या ३, २०; -लौकिकी आश्री ७, १३, ५; वीश्री.  
 लोकिक- -नन् अत्र ६३, १, १६.  
 लोकिक- -मे वाच ३०, २०.  
 लोकिक- (ख >) लौ- -ल्यार्थे वाश्री ७, ११५ : २.  
 लोकिक- -निर वाश्री २०, १५, १३<sup>१</sup>.  
 लोकिक- (ः) वाश्री ३, १, १, ५९; कौश्व ७, ४, २०<sup>१</sup>; शांठ ७, १९, ५<sup>१</sup>; पापदा ३०.  
 लोकिक- -निविष्ट- -धानम् वच ७०, १, २.  
 लोकिक- (व-जा) लक- -काः आश्रित २, ४, १२ : ८.  
 लोकिक- -कः विष २३, ८०.  
 लोकिक- -हृत् नित् ७, २ : ११.  
 लोकिक- (ः) श्री- -ऽत्रि विष २२, ८.  
 लोकिक- -नन् वच ३३, ४, २.  
 लोकिक- (ः-श्री) श्रि- -श्रिः अत्र

७०, ८, ४.  
 लोकिक- -मः वैश्रीका १५७.  
 लोकिक- -लान् वच ३८<sup>१</sup>, १, ४; २०<sup>१</sup>, १, १४; शेष २३६ : १५; विष ३, १६; -लेनः अत्र ३८<sup>१</sup>, १, ३.  
 लोकिक- -नन् अत्र ७०<sup>१</sup>, १०, ४.  
 लोकिक- (न >) नी<sup>१</sup> - नी वैश्व ३, १४ : १३.  
 लोकिक- -हः अत्र ३३, १, ३; ७०<sup>१</sup>, १, ३; -हन् अश्री ३, १.  
 लोकिक- -नान् काश्री ३३, १, ९.  
 लोकिक- -धीनि वैश्व ६ : १४.  
 लोकिक- -नाः वाश्री ३०, ४, ९.  
 लोकिक- -शेषे नीत् ७, १, ६.  
 लोकिक- -नन् वाश्री २, १६ : ५.  
 लोकिक- -नन् अत्र ३, १, ११<sup>१</sup>; -नन् वैश्व ७, ४ : ५.  
 लोकिक- (ख) श्रि<sup>१</sup> - पादा ६, ३, ६९; -श्या वीश्री ३०, ३६ : १५xx; नाश्री; -जा वीश्री ३२, ८ : २; ३; नाश्री; -याः काश्री ३७, ६, ५xx; काश्री; -जानान् काश्री ३७, ७, २१; -जानिः काश्री ३८, ६, ७; काश्री ३६, १४, ८; ३३, ७; ३७, १०, ८; वीश्री; -जान् आश्री ३६, १४, ९; वीश्री ३०, ३३ : १०; वैश्री; -जानः वाश्री २, २, ५, २०;

२१; नीत् ५, ३, २०; -जान् काश्री ३६, ७, १९; ३७, ३, १५; वैश्री ३२; वाश्री ३७, ४, ५; वाश्री ५, ८, ५; -जे वीश्री ३०, ३३ : १५.  
 लोकिक- (ख-श्री) श्रि- -श्रिः काश्री ३७, १०, १०<sup>१</sup>.  
 लोकिक- -वा वैश्व ७, १३ : १; -नान् वैश्व ७, ६ : २१;  
 लोकिक- -वान् नाश्री २, ८, २६.  
 लोकिक- पादा ६, १, २; नीत् ३, २, ३; २०xx.  
 लोकिक- -जे पादा ३, २, ११३; ८, १, १५.  
 लोकिक- -नन् पादा ६, ३, ६०; -वान् पादा ३, ५, २१; ६५; ३, ४, २१; ६, २, ३६; ७, २, ११७.  
 लोकिक- -निर काश्री ७, १६, ७; श्रि ३, ८, ४; -निरः नाश्री २, १३, १; -निरौ नाश्री ५, ३, १३, १.  
 लोकिक- -नान् पादा ३, ४, ११०.  
 लोकिक- -नन् विष ७३, ८५.  
 लोकिक- (ः) श्रि<sup>१</sup> - धाम् नित् ८, ५ : ३; २०; ६ : १६; ८ : ३८.  
 लोकिक- -नयोः नाश्री ३.  
 लोकिक- -नित् -नित् नीत् ८, ५.  
 लोकिक- -श्री वाश्री ७, ११५ : २.

g) विर, नाव. (लौकिकामि-). कवदिविनाचपेणु पयः प्र. वने. (न ७, १, ८५)। ३) वच. <√वि [वणे]। ०) वच. ननुः ७. ११५ 'वचमः इति पामे.। ८) = वृद्धिः. वच. <√व। १) विर. > वच.। f) = वच.। पम.। g) वच. = वच-विद-। h) वच. = वच-। १) = वच-वच-वच-वच-। j) वैश्व ३. १। k) = लोकिक-। l) वच. <√विद[वणे]। m) वच.> वच.। नो विर. (वच-विद-).। वच. वच. कति वृ.।



लोक-शब्द-पर- -रे भाशि ८६.

लोक-संग्रहणा(ण-अर्थ)- -र्थम् वौध  
१, ५, ९४; १०, २९.

लोक-सनि<sup>१</sup>- -नि शांश्री ४, १३,  
१; आपश्री ६, ११, ५; वौश्री  
३, ७: २; भाश्री ४, २२, ४;  
वाधुश्री २, १६: ३; हिश्री ३,  
७, ९२; -नि: वैताश्री १९, १६.

लोक-समा<sup>१</sup>- -मा: निसू ५, २: २१<sup>२</sup>

लोक-सामन्- -मभि: द्राश्री २, १,  
१३; लाश्री १, ५, १०; -मानि  
निसू ८, ५: ४.

लोक-सिद्ध- -द्धम् कागुड ४१: ६.

लोक-स्पृत्<sup>१</sup>- -स्पृते वौश्री १५,  
२: १०-१२; भाशि ३७.

लोका( क-अ)नि<sup>१</sup>- -नीन् वौश्री  
२०, २६: ५; ६; २४, ७:  
९; ३५: ९; -नीनाम् वौश्री  
२०, २६: ४; २१, १४: ४; २२,  
५: ४; २३, १९: २५.

लोका(क-अ)दिपति- -तय: वृदे  
१, ७३.

लोका(क-अ)धिपति- -तय: वृदे ८,  
१२१.

लोका( क-अ)यत<sup>१</sup>- (>लौकाय-  
तिक- पा.) पाग ४, २, ६०.

लोका(क-अ)लोका<sup>१</sup>- >क-पाल-  
-लान् शंघ ११६: ६.

लोकालोका( क-आख्या > )  
ख्य- -ख्यम् शंघ ११६: ५.

लोके(क-ई)श<sup>१</sup>- -०श विघ १, ५२.

लोके(क-ई)ष्टका<sup>१</sup>- -का: आपश्री १७,  
९, ७; वैश्री १९, ६: ११.

लोके(क-ई)ष्टि<sup>१</sup>- -ष्टि: आश्री २,  
१०, १९.

लोको(क-उक्त >)क्ता- -क्ता निसू  
१०, १०: १४; -क्ता: निसू ३,  
१३: १५.

लोको(क-उ)त्तरपद- -दान् पावा  
४, २, ६०.

लोकप्र<sup>१</sup>- -क्य: आगृ ४, ८, ३५;  
-क्यम् वाधुश्री २, ३: १.

रलोक<sup>१</sup>->रलौक्य- -क्य: शांश्री  
१५, १, १२; ऋअ २, १०, ७२.

लोक-काम- प्रमृ. १ लोक- द्र.

लोकाक्ष<sup>१</sup>->लौकाक्षि<sup>१</sup>- -क्षय:  
वौश्रीप्र ४४: १.

लोकाक्षि<sup>१</sup>- -क्षय: वौश्रीप्र ४४: ५<sup>२</sup>.  
लोकेशी<sup>१</sup>->शी-पल्लव- -वान् अप  
३५, २, ७.

लोग<sup>१</sup>- -गम् शांश्री ५, १३, ३; कौसू  
७५, १४; ७७, ८; -गान् कौसू  
८६, ८.

लोगे(ग-इ)ष्टका<sup>१</sup>- -का: काश्री १७,  
३, ११.

लोगाक्ष<sup>१</sup>->लौगाक्षि- -क्षि: काश्री  
१, ६, २४; काठश्री १९; २१<sup>२</sup>;  
४९; १३४; शुअ ३, ५७; -क्षिणा  
चाअ ४२: २०.

लोगाक्षि<sup>१</sup>- -क्षीणाम् वैध ४, ७, ९.  
लोक<sup>१</sup>- पाधा. भ्वा. आत्म. दर्शने;  
चुरा. उभ. भापायाम् > लोचन<sup>१</sup>-  
> न-युग्म- -मे शंघ ४५७:  
१२.

लोचना<sup>१</sup> (> न्ता > कृ)  
लोद- (> लोद्व्य पा.) पाग ३, १,

२७.

लोटा<sup>१</sup>- (> लोटाद्य पा.) पाग ३,  
१, २७.

लोडुल- पाउना ५, ८.

लोडु<sup>१</sup> पाधा. भ्वा. पर. उन्मादे.

लोट- पाउ ३, ८६.

लोट- पाउवृ ४, १७३.

लोड<sup>१</sup>- -धम् निघ ४, १; या ४,  
१४<sup>१</sup>.

लोड<sup>१</sup>- पाउनावृ २, २७; -धम् अप  
३०<sup>३</sup>, २, ५.

लोप- प्रमृ. लुप् द्र.

रलोप<sup>१</sup>->लौपायन<sup>१</sup>- -न: साअ  
१, ४४८; २, ४५९; -ना: ऋअ  
२, ५, २४.

लोपासुद्रा<sup>१</sup>- -द्रा वृदे २, ८३; शुअ २,  
२७९; -द्राम् वृदे ४, ५७;  
-द्राया: ऋअ २, १, १७९.

लोपाश<sup>१</sup>- -श: या ५, ३१<sup>१</sup>.

लोपत्र- प्रमृ. लुप् द्र.

लोफाण्ट- (> ण्टी-) लोहारड-  
टि. द्र.

लोम- प्रमृ. लुप् द्र.

लोभा<sup>१</sup>- -भायाम् वौश्री २, ५: १२<sup>१</sup>.

लोभात् निसू १०, ६: २०.

लोमक- (> लौमकायन- , कीय-  
पा.) पाग ४, २, ८०<sup>२</sup>.

रलोमक<sup>१</sup>- (> लौमकायनि- पा.)  
पाग ४, १, १५४.

लोम-तस् (: ) प्रमृ. १ लोमन्- द्र.

लोमन्<sup>१</sup>- पाउ ४, १५१; पाग  
५, २, १००; ३, १०७;  
पावाग ८, २, १८<sup>१</sup>; -मं आश्री

a) वैप १ द्र. 1 b) विप. (स्तोम-)। उस. उप. विजन्तम्, पूष. = साम-विशेष-। c) पूष.  
= लौकिक-। d) = चार्वाक-शास्त्र-। e) = [सप्तद्वीपा-] चतुस्रती- पर्वत-विशेष-। f) = विष्णु-। g) = [लोक-  
पृष्णा-] इष्टका-। h) = इष्टि-विशेष-। i) हितार्थे वा निमित्तार्थे वा यत् प्र.। j) व्यप-। k) तु.  
पाका. [६, २, ३७]। l) = ओपधि-विशेष-। m) = चक्षुस्-। n) पृ २०८१ d द्र. 1 o) तु. पागम. 1  
p) लौड इति [पक्षे] BFG. 1 q) = वृक्ष-विशेष-। r) पृ १०२२ c द्र. 1 s) नाप. 1

-ञौ वैगृ ३, १८ : ३; ६, १ :  
२१×४; वैध ३, ८, ४.

लौकिकाम्नि-विसर्जन-

-नम् वैगृ १, २१ : १३.

१लौक्य<sup>१</sup>-क्यम् वौश्रौ १७,

१८ : ११; -क्यानाम् वृदे १, ४;

-क्ये वौश्रौ २७, ११ : १६; १९.

लोक-काम- -मः कौसू ५९, २१;

-मस्य क्षुसू १, ४ : १७.

लौकिक-कृत्- -कृत् काश्रौ ३, ६,

११; आपश्रौ ५, १६, १;

वौश्रौ; या ३, २०; -लकृतौ

आश्रौ ४, १३, ५; वौश्रौ.

लोक-क्षय-कर- -रम् अप ६१,

१, १६.

लोक-ग्रहण- -णे वाध १०, २०.

लोक-चि (त्य>) त्या<sup>२</sup>- त्याचै

वाधुश्रौ ४, ११५ : २.

लोक-जित्- -जित् आपश्रौ २०,

१५, १३<sup>३</sup>।

लोक-तस् (: ) वाश्रौ १, १, १, ७३;

कौगृ ४, ४, २०<sup>३</sup>; शांगृ ४, १९,

५<sup>३</sup>; पापवा १०.

लोक-त्रय-निविष्ट- -ष्टानाम् अप

७०, १, २.

लोक-त्रया(य-आ)त्मक- -काः

आमिगृ २, ४, १२ : ८.

लोक-दाम्भिक- -कः विध ९३, ८९.

लोक-दृष्टि- -ष्टयः निस् ४, २ : ११.

लोक-धा(तृ)त्री<sup>४</sup>- -०त्रि विध ९९,

८.

लोक-धारण- -णम् अप ३१, ४, २.

लोक-नाशा(श-अ)र्थ- -र्थैः अप

७०, ८, ४.

लोक-प- -पः जैश्रौका १५४.

लोक-पाल- -लान् अप १८<sup>३</sup>, १,

४; ३०<sup>३</sup>, १, १४; शंघ ११६ :

१५; विध १, १६; -लेभ्यः अप

१८<sup>३</sup>, १, ३.

लोकपाल-ज- -जम् अप ७०<sup>३</sup>,

१०, ४.

लोक-पाव(न>)नी<sup>५</sup>- -नी वैगृ १,

१४ : १३.

लोक-पितामह<sup>६</sup>- -हः अप ३१, १,

३; ७०<sup>३</sup>, १, ३; -हम् आज्यो

१, १.

लोक-प्रत्यय- -यात् काश्रौ १३, १, ९.

लोक-वाधिन्- -धीनि वौश्रु ६ :

१४.

लोक-वृहद्ग्रन्तर<sup>७</sup>- -राः लाश्रौ

१०, ४, ९.

लोक-भूत- -तेषु मीसू ४, १, ६.

लोक-मय- -यम् वाधुश्रौ २, १६:५.

लोक-मातृ<sup>८</sup>- -तरः कप्र १, १, ११<sup>४</sup>;

-तरम् वैगृ ७, ४ : ५.

लोक-पृ(या)गा<sup>९</sup>- पावा ६, ३, ६९;

-णया वौश्रौ १०, ३६ : १५××;

माश्रौ; -णा वौश्रौ १९, ८ : २;

३; माश्रौ; -णाः काश्रौ १७,

६, ५××; आपश्रौ; -णानाम्

काश्रौ १७, ७, २१; -णाभिः

काश्रौ १८, ६, ७; आपश्रौ १६,

१४, ८; ३३, ७; १७, १०, ८;

वौश्रौ; -णाम् आपश्रौ १६, १४,

९; वौश्रौ १०, ३३ : १०; वैश्रौ;

-णयाः वाश्रौ २, २, ५, २०;

२१; मीसू ५, ३, २०; -णासु

काश्रौ १६, ७, १९; १७, १, १७;

जैश्रौप १२; द्राश्रौ १४, ४, ७;

लाश्रौ ५, ८, ७; -णे वौश्रौ १०,

३३ : १५.

लोकपृणा(या-आ)दि- -दिः

आपश्रौ १७, १०, १०<sup>५</sup>.

लोक-यात्रा- -त्रा वैगृ ४, १३ : १;

-त्राम् वैगृ ५, ६ : २१;

लोक-रव<sup>६</sup>- -वात् नाशि २, ८, २६.

लोक-वत् पावा ६, १, २; मीसू १,

२, १७; २०××.

लोक-विज्ञात- -ते पावा ३, २,

१११; ८, १, १५.

लोक-विज्ञान- -नम् पावा ६, ३,

६०; -नात् पावा १, १,

२१; ६५; ३, ४; २१; ६, २,

३६; ७, २, ११७.

लौकिक-विद्<sup>११</sup>- -वित् आपश्रौ ७,

१६, ७; हिश्रौ ६, ८, ४; -विद्ः

माश्रौ ५, २, १३, १; -विदौ माश्रौ

५, २, १३, १.

लोक-विदित्व- -त्वात् पावा १,

४, ११०.

लोक-विद्विष्ट- -ष्टम् विध ७१, ८५.

लोक-वि(ध>)धा<sup>१२</sup>- -धाम् निस्

८, ५ : ३; २०; ६ : १६; ८ :

३८.

लोक-वेद- -दयोः पाशि १.

लोक-वेद-वेदाङ्ग-विद्<sup>१३</sup>- -वित्

गौध ८, ५.

लोक-न्यत्युह<sup>१४</sup>- -हौ वाधुश्रौ ४,

११५ : २.

a) विप., नाप. (लौकिकाम्नि-)। तत्रविदितायर्थेषु ण्यः प्र. उस्. (पा ४, १, ८५)। b) उप. <√चि [चयने]। c) सप्र. ननुः ४, १९५ दम्भकः इति पाठे.। d) = पृथिवी-। उप. <√धा। e) विप. > नाप.। f) = वृद्ध-। पम.। g) पू. = साम-विशेष-। h) उप. = रसात्-। i) = पोटशमातृकाऽन्यतमा-। j) वैप १६.। k) = लोकापवाद-। l) उप. <√विद्[ज्ञाने]। m) दस. > उस्.। n) विप. (अग्न्यादित्य-).। उस्. उप. कर्तारि कृत्।

लोक-शब्द-पर- -रे भाशि ८६.

लोक-संग्रहणा(ण-अ)र्थ- -र्थम् वौध  
१, ५, ९४; १०, २९.

लोक-सनि<sup>a</sup>- -नि शांश्रौ ४, १३,  
१; आपश्रौ ६, ११, ५; वौश्रौ  
३, ७: २; भाश्रौ ४, २२, ४;  
वाधुश्रौ २, १६: ३; हिश्रौ ३,  
७, ९२; -नि: वैताश्रौ १९, १६.

लोक-समा<sup>b</sup>- -मा: निसू ५, २: २१<sup>c</sup>

लोक-सामन्- -मभि: द्राश्रौ २, १,  
१३; लाश्रौ १, ५, १०; -मानि  
निसू ८, ५: ४.

लोक-सिद्ध- -द्धम् काण्ड ४१: ६.

लोक-स्पृत्<sup>d</sup>- -स्पृते वौश्रौ १५,  
२: १०-१२; भाशि ३७.

लोका(क-अ)मिन्<sup>e</sup>- -मनीन् वौश्रौ  
२०, २६: ५; ६; २४, ७:  
९; ३५: ९; -मनीनाम् वौश्रौ  
२०, २६: ४; २१, १४: ४; २२,  
५: ४; २३, १९: २५.

लोका(क-अ)दिपति- -तय: वृदे  
१, ७३.

लोका(क-अ)धिपति- -तय: वृदे ८,  
१२१.

लोका(क-अ)यत<sup>f</sup>- (>लौकाय-  
तिक- पा.) पाग ४, २, ६०.

लोका(क-अ)लोक<sup>g</sup>- >कपाल-  
-लान् शंघ ११६: ६.

लोकालोका(क-अ)ख्या >  
-ख्य- -ख्यम् शंघ ११६: ५.

लोके(क-इ)शा<sup>h</sup>- -शा विघ १, ५२.

लोके(क-इ)एका<sup>i</sup>- -का: आपश्रौ १७,  
९, ७; वैश्रौ १९, ६: ११.

लोके(क-इ)ष्टि<sup>j</sup>- -ष्टि: आश्रौ २,  
१०, १९.

लोको(क-उक्त>)क्ता- -क्ता निसू  
१०, १०: १४; -क्ता: निसू ३,  
१३: १५.

लोको(क-उ)त्तरपद- -दात् पावा  
४, ३, ६०.

लोक्य<sup>k</sup>- -क्य: आश्रु ४, ८, ३५;  
-क्यम् वाधुश्रौ २, ३: १.

रलोक<sup>l</sup>->रलौक्य- -क्य: शांश्रौ  
१५, १, १२; ऋश्र २, १०, ७२.

लोक-काम- प्रमृ. १लोक- द्र.

लोकाक्ष<sup>m</sup>- >लौकाक्षि<sup>n</sup>- -क्षय:  
वौश्रौप्र ४४: १.

लोकाक्षि<sup>o</sup>- -क्षय: वौश्रौप्र ४४: ५<sup>r</sup>.

लोकेशी<sup>p</sup>->शी-पल्लव- -वान् अप  
३५, २, ७.

लोग<sup>q</sup>- -गम् शांश्रौ ५, १३, ३; कौसू  
७५, १४; ७७, ८; -गान् कौसू  
८६, ८.

लोगे(ग-इ)एका<sup>r</sup>- -का: काश्रौ १७,  
३, ११.

लोगाक्ष<sup>s</sup>->लौगाक्षि- -क्षि: काश्रौ  
१, ६, २४; काठश्रौ १९; २१<sup>t</sup>;  
४९; १३४; शुश्र ३, ५७; -क्षिणा  
चाश्र ४२: २०.

लोगाक्षि<sup>u</sup>- -क्षिणाम् वैघ ४, ७, ९.  
लौच् पाधा. भ्वा. आत्म. दर्शने;

जुरा.उभ.भापायाम् >लोचन<sup>v</sup>-  
>न-युग्म- -मे शंघ ४५७:  
१२.

लोचना<sup>w</sup>( >ना/कृ )  
लोद्- (>लौद्य पा.) पाग ३, १,

२७.

लोटा<sup>x</sup>- (>लौटाय पा.) पाग ३,  
१, २७.

लोदुल- पाउना ५, ८.  
लौड् पाधा. भ्वा. पर. उन्मादे.

लोट- पाउ ३, ८६.

लोत्र- पाउवृ ४, १७३.

लौघ<sup>y</sup>- -घम् निघ ४, १; या ४,  
१४<sup>z</sup>.

लोघ्र<sup>aa</sup>- पाउनावृ २, २७; -घ्रम् अप  
३०<sup>ab</sup>, २, ५.

श्लोप- प्रमृ. लुप् द्र.

रश्लोप<sup>ac</sup>->श्लोपायन<sup>ad</sup>- -न: साश्र  
१, ४४८; २, ४५९; -ना: ऋश्र  
२, ५, २४.

लोपासुद्रा<sup>ae</sup>- -द्रा वृदे २, ८३; शुश्र २,  
२७९; -द्राम् वृदे ४, ५७;  
-द्राया: ऋश्र २, १, १७९.

लोपाश<sup>af</sup>- -श: या ५, ३<sup>ag</sup>.

लोप्त्र- प्रमृ. लुप् द्र.

लोफाण्ट- (>ण्टी-) लोहाण्ड-  
टि. द्र.

लोम- प्रमृ. लुप् द्र.

लोमा<sup>ah</sup>- -मायाम् वौश्रौ २, ५: १२<sup>ai</sup>.

लोमात् निसू १०, ६: २०.

श्लोमक- (>लौमकायन- , कीय-  
पा.) पाग ४, २, ८०<sup>aj</sup>.

रश्लोमक<sup>ak</sup>- (>लौमकायनि- पा.)  
पाग ४, १, १५४.

लोम-तस्- (: ) प्रमृ. १लोमन्- द्र.  
श्लोमन्<sup>al</sup>- पाउ ४, १५१; पाग  
५, २, १००; ३, १०७;

पावाग ८, २, १८<sup>am</sup>; -म आश्रौ

a) वैप १ द्र. । b) विप. (स्तोम-) । उस. उप. विजन्तम्, पूष. = साम-विशेष- । c) पूष.  
= लौकिक- । d) = चार्वाक-शास्त्र- । e) = [सप्तद्वीपा] वसुमती, पर्वत-विशेष- । f) = त्रिपणु- । g) = [लोकं-  
पृष्णा-] इष्टिका- । h) = इष्टि-विशेष- । i) हितार्थे वा निमित्तार्थे वा यत् प्र. । j) व्यप. । k) तु.  
पाका. [दि, २, ३७] । l) = ओपधि-विशेष- । m) = चतुस्- । n) पृ २०८१ d द्र. । o) तु. पागम. ।  
p) लौड् इति [पक्षे] BPG. । q) = वृक्ष-विशेष- । r) पृ १०२२ c द्र. । s) नाप. ।

२,७,६; आपध्रौ १,१०,१; २०,  
१९, ९; वौध्रौ; -मभिः  
आपध्रौ १६,१९,१; वैध्रौ १८,  
१६ : ७; हिध्रौ; -मभ्यः  
आपध्रौ ११,३,१; हिध्रौ; -मसु  
काध्रौ १६,५,१; वाध्रौ ३,४,३,  
४५; पा ७, २, २९; -मानि  
काध्रौ १९, ५, १०; आपध्रौ;  
-ऋःऽ-ऋः आपमं १, १७, ६;  
शैशि २९२; -ज्ञा वाध्रौ ४,  
६५ : ३; १०९ : ४; हिध्रौ २४,  
६, १८; -ज्ञाम् आपध्रौ १५,  
१५, १; भाध्रौ ११, १५, २७;  
हिध्रौ १४,४, १९; कौसू १४१,  
४; -न्नि आमिगृ १,६,३ : ४०;  
-न्निऽ-न्नि अप १,५०,४.

लौमन- पा ५,३,१०७.

लोम-तस्(ः) माध्रौ १, ५, १,  
१७xx; मागृ १,११,१९; १४,७.

लोम-त्वगा(ग्-आ)च्छाद<sup>१</sup>- -दः  
मागृ १,३,६.

लोम-न्ख- -खानाम् पागृ २, १०,  
२४; -खानि कौगृ ५,१, १२;  
शांगृ ३,१,२; जैगृ १, १८ : ५.

लोम-मणि- -णिः कौसू १३,८.

लोम-मिध्र- -ध्रन् कौसू २६,१४.

लोम-वत्- पा ५,२,१००.

लोम-वर्जम् वाध्रौ २,१,१,३४.

१लोम-श, शा<sup>१</sup>- पा ५, २, १००;  
पाग २, ४, ३१; -शम् आपध्रौ  
९,१९,१५; १४,७,१३; भाध्रौ;  
-शाम् धौगृ २, ६, ९; -शे

आपध्रौ १०,५, १५; वैध्रौ १२,  
६ : १०; -शौ आपध्रौ ८,६,  
११; भाध्रौ ८, ६, ६; हिध्रौ ५,  
२,३९.

लोमश-क<sup>०</sup>- -कः, -कस्य वौध्रौ  
२४,२३ : ५.

लोमश-सक्य<sup>१</sup>- -क्यौ<sup>०</sup> आपध्रौ  
२०,१३,१२; वौध्रौ १५, २३ :  
६; २६ : ७.

लोमश-सक्यि<sup>१</sup>- -क्यौ<sup>०</sup> हिध्रौ  
१४,३,१४<sup>०</sup>.

लोम-संहरण- -णम् आपध २, ५,  
१६<sup>१</sup>.

लोमा(म-अ)ग्र- -आत् वाध २५,५.

√लोमि पा ३,१,२५.

लोमि(क>)का<sup>१</sup>- -काः अशां  
१५,३.

२लोमन्<sup>१</sup>- पाग ४,१,९६; ९८.

१लौमायन- पा ४,१,९८.

लौमायन्य- पा ५, ३, ११३;  
-न्याः वौध्रौ ४५ : ५.

लौमि- पा ४,१,९६.

३लोमन्- पाग ४,२,७५; ८०<sup>२</sup>.

लौम- पा ४,२,७५.

लौमन्य-, २लौमायन- पा ४, २,  
८०.

२लोमश- ( > लौमशीय- पा. )  
पाग ४,२,८०.

लोमश्या<sup>१</sup>- -श्याम् ऋषा १४, २०.

लोह- √लृ द्र.

√लोष्ट पाघा. भ्वा. आत्म. संघाते.

लोष्ट, ष्ट<sup>१</sup>- पाठ ३,९२; -ष्टः कौसू

१६, ३२; वा ६, १; याशि १,  
३४; -ष्टम् काध्रौ ७, ४, ३१;  
आपध्रौ; मागृ १, ७, ९; २,  
१४, ४; आपध १, ३०, १९;  
शुभ्र १, २५८; २६०; -ष्टस्य  
वाध्रौ २, २१ : ५; -ष्टान्  
आपध्रौ १६, २०, ५; वौध्रौ;  
वौषि १, ३ : १६; २३; मागृ  
१, ७, ९; -ष्टानाम् कौसू ३७,  
७; -ष्टानि माध्रौ ४, ३, ४;  
-ष्टेन शाध्रौ ४, १५, ८; वाध्रौ  
३,३, १, १२; वैताध्रौ १२, ६;  
कौगृ ५, ६, २; कौसू १६, ३१;  
-ष्टेषु हिपि २ : १६; -ष्टैः भाध्रौ  
१०; १८, १४; हिध्रौ ७, २, ८७;  
-ष्टौ वौध्रौ १०, २६ : ५;  
वाध्रौ २, २१ : २.

लोष्ट-कपाल<sup>१</sup>- -लम् काध्रौ २०,  
३, १७.

लोष्ट-चित्ति- -त्तिः आमिगृ ३, ८, ३;  
४६<sup>१</sup>; वौषि १, १६ : ३०; ३१.

लोष्ट-मर्दिन्- -र्दिं विध ७१, ४२.

लोष्टा(ष्ट-आ)दि- -दिः वाध्रौ २, १,  
५, १३.

लोष्टे(ष्ट-इ)ष्टका-परिमृष्ट-गुद<sup>१</sup>-  
-दः विध ६०, २४<sup>१</sup>.

१लोह(वप्रा.)<sup>१</sup>- पाग २,४,३१; ४,३,  
१५२; -हः<sup>१</sup> शाध्रौ १४, १३,  
१; १५, १५, २; आपध्रौ १०,  
२९, ५; वौध्रौ २१, १२ : २९<sup>१</sup>;  
हिध्रौ ७, ३, २१; -हम् भाध्रौ  
७, ९, ७<sup>१</sup>; माध्रौ ३, १, २<sup>१</sup>; ५, २,

a) विप. । मलो. कस. > वस. वा उस. वा ।

b) वैप १ द्र. ।

c) = पलाश-विशेष- ।

स्वार्थे कः प्र. । d) वस. उप. वैकल्पिकः समासान्तपृ पञ् प्र. ( पा ५, ४, ११३ ) ।

e) परत्परं

पाभे. । f) पाभे. पृ १३७० f द्र. ।

g) विप. । मत्वर्थीयपृ ट्न् प्र. ।

h) व्यप. ।

i) = धनिदोषविशेष- ।

j) ष्ट- इति मागृ. आपध. वौषि. शुभ्र. पाठः ।

k) वस. ।

l) द्रत्.

> वृत्. > वस. ।

m) 'काभिः परिमृश्य गुदम् इति जीसं. ।

n) विप. [ताम्रवर्ण-] ऋज-, वृष- ।

o) = ताम्र-धातु- ।

१४, ९; अप १, ६, ३<sup>३</sup>; ४८,  
९१<sup>३</sup>; विध ११, ९<sup>०</sup>; काध २७२;  
१२<sup>३</sup>; निघ १, २<sup>३</sup>; -हस्य शंघ  
१६४<sup>३</sup>; -हानाम् शंघ १६४<sup>३</sup>;  
-हेन आपध २, १८, १४<sup>३</sup>.  
लौह<sup>०</sup> - पा ४, ३, १५२; -हम्  
आपध १, १७, ११; हिध १, ५,  
४३; -हा: काश्रौ २०, ७, ४;  
-हानि वैश्रौ १, ९: ९<sup>१</sup>; हिश्रौ  
३, ३, ३३; -हे काश्रौ ७, ४, २९;  
-हेन आपश्रौ ८, ४, १; वौश्रौ  
२२, १९:३; भाश्रौ ८, ३, २४;  
हिश्रौ ५, १, ४६; आश्रु १, १७,  
९; हिध २, ५, ६७<sup>३</sup>.  
लौही- -हीभि: आपश्रौ  
२०, १८, ७.  
लौह-राजत-सौवर्णी- -र्णीभि:  
काश्रौ २०, ७, १<sup>३</sup>.  
लौह-कार- -रा: अप १, ६, २.  
लौहकारा(र-अ)न्नि- -श्रौ काध  
२७८: ३.  
लौह-क्षुर- -रम् काश्रौ ५, २, १७;  
कौश्रु १, २१, ६; ११; शांश्रु १,  
२८, ७; १४; पाश्रु २, १, ११.  
लौह-चारक<sup>३</sup>- -कम् विध ४३, २२.  
लौह-चूर्ण- -र्णम् कप्र ३, ९, १८.  
लौह-ण्ड- -ण्ड: गौध २२, २७;  
-ण्डम् विध ५०, ३१; सुध ३८.  
लौह-धारण- -णम् शंघ २६५.  
लौह-पिण्ड- -ण्डम् शंघ २६६;

विध ११, ५; ७; १०.  
लौह-वद्ध- -द्धम् माशि १६, ११.  
लौह-भाण्ड- -ण्डम् विध २३, २.  
लौह-मय- -यानि आमिग २, ७, ८:  
१६; ३, ५, ७: १६; वौषि १,  
६: ११; अप्राय ३, ७; -येन  
आमिग २, ४, १०: १२.  
लौहमयी- -यीभि: वाश्रौ ३,  
४, ४, १७; हिश्रौ १४, ४, १७.  
लौह-मुख<sup>३</sup>- -खा: अप ९, ४, १.  
लौह-वेष्टित- -तम् अप २३, २, ३.  
लौह-शकल- -लानि आपश्रौ ५, २,  
३; वाश्रौ १, ४, २, ८.  
लौह-शङ्कु<sup>३</sup>- -ङ्कु: विध ४३, १६.  
लौह-शयन<sup>३</sup>- -ने वौध २, १, १२;  
गौध २३, ९.  
लौहा(ह-अ)दि- -दीनाम् अप  
६४, ३, ५.  
लौहा(ह-अ)यस<sup>३</sup>- -यम् काश्रौ  
१५, ५, २२; हिश्रौ १३, ५, २७;  
वाश्रु ४, १७<sup>३</sup>; -सा: वाधुश्रौ ३,  
७६: २९<sup>३</sup>; -सान् वौश्रौ १५,  
१५: ३; -सै: वौश्रौ १५, २८:  
१३; ३३: २.  
लौहायस<sup>०</sup>- -सम् आश्रु ४,  
३, १९; काश्रु ४०, १२; माश्रु १,  
२१, ७; -सेन माश्रौ १, ७, २,  
२३<sup>३</sup>.  
लौहायसी- -स्याम्  
वाधुश्रौ ४, २६: १.

लौहायस-स्सह<sup>३</sup>- -रव: वाधुश्रौ  
३, ७६: ३०; -स्सन् वौश्रौ १५,  
१५: ३.  
लौहा(ह-अ)इम-करण- -वर्जम्  
वौध ३, ३, १०.  
रलौह<sup>३</sup>- (> लौहायन- पा:) पाग  
४, १, ९९.  
लौहाण्ड<sup>३</sup>- (> ण्डी- पा:) पाग  
४, १, ४१.  
लौहायन<sup>३</sup>- -ना: वौश्रौ प्र ४६: १.  
श्लोहित<sup>३</sup>- पाठ ३, ९४; पाग  
२, ४, ३१; ३, १, १३;  
६, ३, ११६<sup>३</sup>; पावाग ८,  
२, १८<sup>३</sup>; -त: काश्रौ १५,  
३, १९; १०, ५; २२, ३; १४;  
आपश्रौ २२, ४, १७; हिश्रौ १७,  
२, २३; आपमं २, १६, ८<sup>३</sup>;  
†भाश्रु २, ७: १८<sup>३</sup>; २१<sup>३</sup>; हिश्रु  
२, ७, २<sup>३</sup>; अप ५३, ४, ३××;  
-तम् काश्रौ ६, ७, १३; २०,  
७, ८; ८, १; ८; २५, ६, ८<sup>३</sup>;  
आपश्रौ; -तस्य आपश्रौ: १५,  
१५, १; भाश्रौ ११, १५, २६;  
हिश्रौ २४, ६, १२; कौसू ४४,  
३२; आपध; -ता: अप ५२,  
७, २; ६३, ४, ९; गौध १७, २०;  
-तान् वाध १५, १२; शंघ  
४२७; विध ५१, ३६; -तानाम्  
कौसू ४८, ४१; -तानि कौश्रु १,  
१६, १६; शांश्रु १, २४, ७; -ते

a) = ताम्र-धातु-। b) सुवर्ण-नामन्-। c) पिण्डम् इति जीसं.। d) विप.। सगा. लो° <> [स्वार्थे प्र.]  
लो° इति पाभे.। e) विकारार्थे प्र.। f) लो° इति पाठ: ? यनि. शोध: (तु. हिश्रौ.)। g) लो° इति पाठ: ?  
यनि. शोध: (तु. चौसं.)। h) = नरक-विशेष-। मलो. वस.। i) वस.। j) उप. = शय्या-। k) नाप.  
(ताम्र-).। कस. समासान्तषु ट्च प्र. (पा ५, ४, ९४)। l) = [लौहायस-विकार-] क्षुर-। m) = [तद्विकार-] असि-।  
n) सस्थ. रक्तुण्णायस- > -सा: इत्यत्र वस. नेष्ट:। o) विप. (क्षुर-).। स्वार्थे प्र.। p) वैतु. BW. MW.  
लोहा° इति। q) व्यप-। r) लोफण्ट- इति पाका.। s) विप., नाप. (रुधिर-, धातु-विशेष- प्रत्य.)।  
शिष्टं वैप १ द्र.। t) = पर्वत-विशेष-। u) तु. पागम.। v) = [लोहितवर्ण-] इवप्रह-विशेष-।  
w) पाभे. पृ २०९३ O द्र.।

आपश्रौ ५, ५, १; १६, २१, २;  
हिश्रौ ४, ४, १५; द्रागृ ४, २, ६;  
-तेन काश्रौ ६, ६, ८; आपश्रौ;  
गोश्र ३, ६, ६<sup>६</sup>; द्रागृ ३, १, ४८<sup>६</sup>;  
कौसू २३, १४<sup>६</sup>; अप १८<sup>३</sup>,  
१, ८<sup>६</sup>; वाघ २०, १६.

लोहिनी<sup>७</sup>- नीः आपश्रौ  
१६, १३, ७; -नीम् आपश्रौ  
१०, २६, १३; -नीनाम् अत्र  
७, ७४<sup>१</sup>; -न्यः आपश्रौ ९,  
२०, ९; वैश्रौ २०, ३९ : १०.

लोहिनी-(क>)का<sup>८</sup>-  
का आपश्रौ ६, ९, १<sup>१</sup>.

लोहितीक- पा ५, ३, ११०.

लोहितक<sup>९</sup>- पा ५, ४, ३०<sup>९</sup>; -केन  
आपघ १, २४, १४; हिघ १,  
६, ६३.

लोहितनात्र<sup>१</sup>- -त्राय अप २०,  
४, २<sup>१</sup>.

लोहितम्री(वा>)व<sup>१</sup>- -वः वौश्रौ  
१५, २८ : १६<sup>१</sup>.

लोहितदर्भ- -भैः वाघ २१, २<sup>१</sup>.

लोहितदर्शन- -ने गौघ २१, २२.

लोहितदोह- -हे काश्रौ २५, २, २.

लोहितपचन<sup>६</sup>- -नान् वैश्रौ १३,  
५ : १<sup>७</sup>; -नैः हिश्रौ ११, १, ६१<sup>६</sup>.

लोहितपचनीय<sup>१</sup>- -यैः आपश्रौ  
१५, ३, २०<sup>६</sup>; ४, २; १६, ५, ८;

९; भाश्रौ ११, ३, १४<sup>६</sup>; १६;  
हिश्रौ ११, १, ६३; २४, १, २०<sup>६</sup>.

लोहितपांसु<sup>१</sup>- -सु गोश्र ४, ७, ६.

लोहितपात्र- -त्रेण कौसू २९,

१९.

२लोहितपात्र<sup>१</sup>- -त्रः गौघ २३, १८.

लोहितप्रवाण<sup>१६</sup>- -णानि लाश्रौ ८,  
६, २०.

लोहितत्रलि- -लीन् काश्र ५२, ७.

लोहितमिश्र- -श्रम् शाश्रौ ४,  
१९, ७.

लोहितलवण<sup>१</sup>- -णन् कौसू ३१,  
१७.

लोहितलिप्त- -सम् पाश्र ३, ८, १२.

लोहितवर्ष<sup>३</sup>- -र्षम् कौसू २४,  
१४<sup>१</sup>.

लोहितचसन<sup>१</sup>- -नाः आपश्रौ १९,  
१६, ६; २२, ४, २३; हिश्रौ

१७, २, २७; २२, १, ३; २, ११.

लोहितवासस<sup>१</sup>- -ससः काश्रौ  
२२, ३, १५; वौश्रौ २३, १ : २६;

लाश्रौ ८, ५, ८; वौघ १, ६, ९;  
अत्र १, १७; या ३, ४<sup>१</sup>.

लोहितशकृत्- -कृतोः मीसू ४, १,  
२७.

लोहितशिरस<sup>१</sup>- -रसम् कौसू ४७,  
३९.

लोहितश्वेत<sup>१</sup>- -तः हिश्रौ ७, ३, २१

लोहितसारङ्ग<sup>१</sup>- -ङ्गः आपश्रौ १०,  
२९, ५; वैश्रौ १२, २० : १५;

-ङ्गम् काश्रौ ७, ९, १८.

लोहितसूत्र- -त्रेण कौसू ८५, १८.

लोहित(त-अ)क्त- -क्तम् वाश्रौ  
१, ६, ५, २२

लोहिता(त-अ)क्ष<sup>१०</sup>- -क्षः नाश्र २,  
१४, २९<sup>१</sup>; विघ ३, ९५.

लोहिता(त-अ)क्ष<sup>१०</sup>- -क्षौ अप  
६३, १, ९.

लोहित>]ता-गिरि- पा ६, ३,  
११६.

लोहिता(त-अ)गिन्-प्रभा(भ-आ)  
काश- -शम् अप-६४, ६, १०,

लोहिता(त-अ)ङ्ग<sup>१७</sup>- -ङ्गः अप ५२,  
११, ४; आश्रौ ७, ९; -ङ्गस्य

अप ५२, ३, २.

लोहिताङ्गपरिवेष- -पे अप ६३,  
३, ३.

लोहिता(त-अ)ज,जा- -जम् कौसू  
३९, ३; -जायाः कौसू १९, १०;

३६, १९.

लोहिताजापिशित- -तानि  
कौसू ३५, १८.

लोहिता(त-अ)न्त<sup>१२</sup>- -न्तानि काश्रौ  
२२, ४, २२.

✓लोहिताय पा ३, १, १३.

लोहिता(त-अ)यस<sup>१</sup>- -सम् आपश्रौ  
१८, १५, ६; वौश्रौ; -सस्य वौश्रौ

५, १ : ४; ४ : २४; ५ : २; ९ :  
२५; १० : २; १७ : १२; १८ : २;

१७; १५, १२ : ७; १७, ६२ : २०;  
-सेन वाघ ५, ७; -सैः वौश्रौ

१५, ३० : २६.

लोहिता(त-अ)लंकृत- -तम् कौसू  
२२, १; ४७, ४०.

लोहिता(त-अ)श्वत्थ<sup>१</sup>- -श्वत्थ  
कौसू १६, २०.

लोहिताश्वत्थपलाश- -शेन  
कौसू ४८, ३१.

a) = [लोहायस-विकार-] स्वधिति- । b) वैप १ द्र. । c) वैप २, ३ खं. द्र. । d) स्वार्थे प्र. ।  
e) = पशराण-नलि- । f) वस. । g) विप. ([नृणकाश्रदि-] संभार-). । उप. करणे कृत् (तु. भाष्यम्; वैतु.  
भाष. प्रनृ. कर्माणि प्र. इति) । h) 'नात् इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. पाभे.) । i) सपा. 'नान् <> षैः  
<> षैः इति पाभे. । j) स्वार्थे छः प्र. । k) उप. <प्र✓वे । l) = सैन्यव- । m) उप. = १ श्रुति- ।  
n) वस. । o) वैकृदिकः समासान्तप् पञ्च प्र. । p) = विनायक-विशेष- । q) विप. > नाप. (महल-प्रद-). ।  
r) उप. = प्रान्त- । s) = तान्न-, [तद्विकार-] छुर-, पात्र- वा । t) = वृक्ष-विशेष- ।

लोहितमन्- -मा कप्र १, ९, ३<sup>३</sup>;  
 -मिन गोष्ट २, ८, १.  
 लोहिती ✓ भू > लोहिती-भवत्-  
 -वन् वौश्रौ २०, १: ५; ९.  
 लोहिते(त-इ)न्द्रधनुर्-नीहार<sup>२</sup>- -रेषु  
 गौध १६, ९.  
 लोहितो(त-उ)ष्णीष<sup>२</sup>- -पा: आश्रौ  
 ९, ७, ४; शाश्रौ १४, २२, २०;  
 काश्रौ २२, ३, १५; आपश्रौ.  
 २लोहित<sup>२</sup>- पाग ४, १, १८; १०५;  
 -ता: आपश्रौ २४, ९, ७; वौश्रौप्र  
 ३२: १; २; हिश्रौ २१, ३, १२;  
 -तानाम्<sup>२</sup> वैध ४, १, ७.  
 लौहित- -०त वौश्रौप्र ३२: ३;  
 वैध ४, १, ७.  
 लौहित्य- पा ४, १, १०५.  
 लौहित्यायान > नी- पा ४,  
 १, १८.

लोहित-वत् वौश्रौप्र ३२: ४; वैध  
 ४, १: ७.  
 लोहित-क- प्रमृ. १लोहित- द्र.  
 ?लोहिताक्षपक्षिता- -सा अप ६५,  
 २, २.  
 लोहिता(त-अ)क्षि- प्रमृ. १लोहित-  
 द्र.  
 लोहितायन- -ना: वौश्रौप्र ३: १४;  
 ४१: ७.  
 लोहिता(त-अ)यस- प्रमृ. १लोहित-  
 द्र.  
 लौकाक्षि- लोकाक्ष- द्र.  
 लौकायतिक-, लौकिक- प्रमृ.,  
 १लौक्य- १लोक- द्र.  
 २लौक्य- २लोक- द्र.  
 लौगाक्षि- लोगाक्ष- द्र.  
 ✓लौङ् ✓लोङ् टि. द्र.  
 लौपायन- २लोप- द्र.

लौम- ३लोमन्- द्र.  
 लौमकायन- १लोमक- द्र.  
 लौमकायनि- २लोमक- द्र.  
 लौमकीय- १लोमक- द्र.  
 लौमन- १लोमन्- द्र.  
 लौमन्य- ३लोमन्- द्र.  
 लौमशीय- २लोमश- द्र.  
 १लौमायन- २लोमन्- द्र.  
 २लौमायन- ३लोमन्- द्र.  
 लौमायन्य- २लोमन्- द्र.  
 लौमि- २लोमन्- द्र.  
 लौव्य- ✓लुल् द्र.  
 लौपायणि- लूप- द्र.  
 लौह- प्रमृ. १लोह- द्र.  
 लौहायन- २लोह- द्र.  
 लौहायस- १लोह- द्र.  
 लौहितीक- १लोहित- द्र.  
 लौही- १लोह- द्र.

a) लौहित्यम् इति जीसं. । b) द्रस. लोहित- = लोहितवर्णाकाश- । c) वस. । d) = ऋषि-  
 विशेष- । e) बहु. <लौहित- ।